

शान्तकुटी-वैदिकग्रन्थमाला

सा च

विश्वबन्धु-शास्त्रिणा

कर्मिष्ठसंघटकानां लाम्बितप्रौढिविशोषाणामुपत्रिंशानां विदुषां सहयोग-

तश्च परामर्शकसंघटकानां नानादेशीयानामुपत्रिंशानां

विपश्चिदपश्चिमानां सन्निर्देशतश्च

संपादिता

अयं च तस्यां

प्रमो ग्रन्थः

लाभपुरे

विश्वेश्वरानन्द-वैदिक-शोध-संस्थानेन प्रकाशितः

२००२ वि०

THE SĀNTAKUTĪ VEDIC SERIES

EDITED

With the co-operation of a Staff Organisation of about thirty specially
Trained Scholars and under the general guidance
of an inter-national Advisory Board

By

VISVA-BANDHU ŚĀSTRĪ, M.A., M.O.L.

VOLUME V

LAHORE

Published by the V. V. R. Institute

1945

A VEDIC WORD-CONCORDANCE

being a *universal vocabulary register* of about 500 Vedic works, with complete textual reference and critical commentary, bearing on phonology, accent, etymo-morphology, grammar, metre, text-criticism, and ur-Aryan philology

In five Volumes, sub-divided into fourteen Parts

By

VISVA-BANDHU ŚĀSTRĪ

Director, the Viśveśvarānanda Vedic Research Institute and the
D. A. V. College Research Department, formerly, Principal,
Dayānanda Brāhma-Mahāvīdyālaya, Lahore

With the immediate assistance of

RĀMĀNANDA ŚĀSTRĪ and AMARA NĀTHA ŚĀSTRĪ

Volume III (UPANIṢADS)

PART II

प-ह, परिशिष्टम्

Pages I-IV, 469-1185

LAHORE

Published by the V. V. R. Institute

1945

वैदिक-पदानुक्रम-कोषः

सं च

संहिताब्राह्मणोपनिषत्सूत्रवर्गीयोपपञ्चशत [५००] वैदिकग्रन्थस्थ-सकलपदजात-संग्रहस्वरूपः
प्रतिपदप्रतियुक्त-श्रुतिस्थलसर्गध्व-निर्देशैः समवेतश्च यथासंगत-तत्तद्वीनपुराण-
वेदाङ्गीयविचारसमन्वितटिप्पणैः सनाधितश्च

संभूय चतुर्दशखण्डात्मकैः पञ्चभिर्विभागैर्व्यूढश्च

सन्

दयानन्दब्राह्ममहाविद्यालयीयाचार्यपदप्रतिष्ठितपूर्व्वेण, विश्वेश्वरानन्दवैदिकशोधसंस्थानस्य
च दयानन्दमहाविद्यालयीयाऽनुसंधानविभागस्य च संचालकेन

सता

विश्वबन्धु-शास्त्रिणा

रामानन्द-शास्त्रिणः ————— अमरनाथ-शास्त्रिणश्च

नान्तरीयेण साहाय्यकेन

संपादितः

३यो विभागः (औपनिषदः)

२यः खण्डः

प-ह, परिशिष्टम्

पृष्ठानि I-IV, ४६९-११८५

लाभपुरे

विश्वेश्वरानन्दवैदिकशोधसंस्थानेन प्रकाशितः

२००२ वि०

So. L. V

VIS

Printed at the V. V. R. I. Press, Lahore.
 First edition, first issue, 1911. Quality I, 375 Copies.
 Price Rs. 30/-. For Standing Subscribers Rs. 27/12/-.

(अधिकार-सर्वस्व सुरक्षितम्)

लाभपुरस्थे वि. वै. शो. सं. मुद्रायुधे मुद्रितो बद्धध ।

प्रथमं संस्करणम्, प्रथमः प्रकारः, २००२ वि० । १मा कोटिः, ३७५ प्रतिकृतयः ।

मूल्यं रु. ३०-००-० । स्थिरमाहकायां कृते रु. २७-१२-०० ।



Prepared and published under the patronage of the Central Government of India, the Provincial Governments of the Panjab, the United Provinces, Bombay and Madras, the Hyderabad, the Mysore, the Travancore, the Baroda, the Indore, the Kolhapur, the Sangli, the Patiala, the Nabha, the Sirmur, the Keonthal, the Jammu and Kashmir, the Jodhpur, the Bikaner, the Alwar and the Shahpura States, the Awagarh, the Vijayanagram and the Jammu Dewan Badri Nath Estates, the Panjab and the Calcutta Universities, the Vishveshvaranand, the Vishva-Bandhu, the Moolchand Khairatiram, the Mohini Thapar and the Chiranjit Lal Brothers Charitable Trusts and a large number of other donors and supporters, official as well as private.

Specially recording, with appreciation, the considerable help that Shri Chiranjiv Lal Banaprasth of Bhera, District Shahpur (Panjab) and his younger brothers, Syts. Devi Dayal Chandhoke (Lahore), Ram Lal (Delhi), Bhagat Ram (Srinagar), Shiv Ram (Lahore) and Inder Sain (Madras) have rendered to the sacred cause of Vedic studies by contributing a sum of Rs 8,369/- towards the publication of the present Volume.

अथ

वैदिक-पदानुक्रम-कोषे

औपनिषदे तृतीये विभागे

द्वितीयः खण्डः

प

प^१

प^० आय ३२६: १; व ४३६: ६.
पं-कार-००र अक्ष ५.

पक-√पच् द.

पक्ष^{१०}- -क्षा: तै २, १-५, १^१; नाद १;
त्रिवि ३, ४; १अव ३; -क्षम् ते
६, २६; नाप ५, २१; त्रिधा २,
१२०; -क्षयो: महा ६, १९;
वपू २, ५; -क्षा: १संन्या १, १;
गु २१; -क्षात् नाद ३२;
-क्षाम्याम् भव १, ३३; -क्षेण वस्
३, ४, ४७; -क्षै: इ १६: १०;
-क्षौ वृ ४, ३, १९; हं १४; पै
२, ४३; गक १११^०.

पक्ष-चञ्चु(क>)का- -का: सार
२८८: ३.

पक्ष-हय- -यम् त्रिवि ३, ४.

पक्ष-पात- -तम् ते ६, २६.

पक्षपात-विनिर्मुक्त- -कम् त्रिवि
६; त्रिता ५, ६; अवि ६.

पक्ष-सपच- -प्ये इ १२: २.

पक्ष-मास(स-अ)र्तु-वर्ष-ज- -जम्
राव ५, ७.

पक्ष-मासत्वं(स-अ)र्तु-अ)यन-संव-
स्तर-भेद- -देन सी १४.

पक्ष-विपक्षा(स-अ)दि-भेद-
वि-धुर- -र: आवो ३.

पक्ष-तस(>) पारा १६.

पक्षि^१- -क्षिण: कौ २, ९^०; सार
२२२: १९; २२५: ३; २३७:
८; २५५: ५; २६२: १७; १८;
२६४: १०; २६६: २२; २६९:

१६; -क्षिणाम् सार २२८: ४;
२२९: ४; २६३: ६; २८२:
१६; भव १, ३३; गी १०, ३०;
-क्षिणु सार २६२: १९; -क्षी
वृ २, ५, १८; ते ६, १३; योशि
१, ५९; वा १५; सु २९४:
११.

पक्षिणी- -णी १संन्या २,
२९.

पक्षि-गण- -ग: भव १, २२.

पक्षि-राज- -जाय त्रिवि ७, ३७.

पक्षि-संबन्धा(न्ध-अ)भि-
(स>)ज्ञा^१- -ज्ञा सार २६३: ६.

पक्षी(क्षि-इ)न्द्र- -न्द्राय गक
३; ६.

पक्षीय^१-पक्षीय^१-चर^०- -रम्^१ पाठ, २१^१.पक्षमन्^{१०}- -दमाणि गु ११.पक्ष^{११}-

पक्ष-गत- -तम् अक्ष १, ३९.

पक्ष-ज^१- -जम् प्या ३९; ४४; योच्
७; -जै: सार २, ३४; शि ७,
१३७; वपू २, ५.

पक्षज-मध्य-स्थ- -स्थम् योशि
५, ४४.

पक्षजा(ज-आ)दि-

पक्षजदि-वक् सांस् ४, ३१.

पक्ष-वर्जित- -तम् शि ५, १३.

पक्ष-स्तम्भा(म्भ-आ)कार- -राणि
नाप ६, १^१.

पक्षा(इ-अ)ङ्गराग- -गेण सार
२४३: २.

पक्षकि^{१०}- -हकय: सार २३४: ९;
-हकि: मैत्रि ७, ५१^{११}; सार २२८:

५; सार २, १०१^{११}; गार ४०७:
१६१^{११}; -हकिम् मना२, ३८१^{११};
३९१^{११}; ४०१^{११}; अशि ७, ७; महा
६, ८३; चन १: १२; ऊद: १३;
वि २६; -हकिणु गार ४०८: १९.
पाहक- -हक: वृ १, ४, १७^१;
-हकम् तै १, ७, २^१; वृ १, ४,
१७; -हकेन तै १, ७, १.

पहकि-दोष- -यै: शि ५, ४.

पहकि-पावन- -न: पत्र ३, २; राउ
५, ४; पै ४, २३; दत्ता ३; वि
२६.

पहकि-बदे(इ-इन्द्रिय-पशु-
-शुम् महा ३, २९^१.

पहकि-शत-सहस्र-पावन- -न:
रुजा ३, १.

पहकि-वास(>) सार २७४: १०.

पहकि-स्थ- -स्थ: शि ५, ४.

पहगु^{११}- -हु: मैत्रि ४, २; नाप ३,
६२^१; ६५; इ १७: ६.

पहव(हु-अ)न्ध-

पहवन्ध-वक् सांका २१.

√पच्, > पाचि, पचति श्चे ५, ५;
गर्भ ५^१; मैत्रि ६, १५; १७; अक्ष
५, २९; पचन्ति मैत्रि ६, १२^१;

गी ३, १३; पचामि वा १४; गी
१५, १४; पच-पच त्रिवि ७, ३३;

त्रिता ३, ३१; गक ६; वपू ३१२:
१४; व ४३०: ११.

पचते क १, १, ६; वृ ५, ९, १;
मै २, ८; मैत्रि २, ६; ६, १५;

पच्यन्ते इ ११: १९.

पाचयति भाव २०^१; पाचयन्ति
सार २७०: १३; १३.

a) =वर्ष- । b) =बीजमन्त्रविशेष- । c) =विभाग- वा पत्र- वा । वैप१ यद. । d) सा १२, ४ । e) णा
इति अश्या. । f) छ > ईय: प्र. उअं. (पा ४, २, १३८) । g) कस. । उप. भाप. । h) वा. किति. द. । i) *क्षी अचरम्
इति मुपा. यनि. सु-सोच: [एतदत्त गप. (वृ १६) अ-चर- > -रम् इति सस्थ. यनि. शोच: इ.] । j) व्यु: =अक्षि-
लोमन्- । k) व्यु: =जलदे- । l) पम्ब^० इति अश्या. संति. । m) =आवली- वा छन्दोविशेष- वा । वैप१ यद. । n) तैआ
१०, ४८, १ । o) तैआ १०, ५०, १ । p) *हकिपन्वे^० इति अश्या. संति. । q) व्यु: । r) 'पह्यु: इति अश्या.
संति. । s) 'पाचयति' इति अश्या. । t) 'पचन्ति' इति अश्या. संति. । u) 'पाचयन्ति' इति अश्या. संति. ।

पक-कम् सुवा १२^५; दां १, ४;
 १संन्या २, १२; १४; शि ६, ३;
 ५-८; १३; १८; १९; कस्य पै ४,
 ७; का: योशि १, २६; कानि
 शि ६, १०; १६; २१; २५.
 पक-कपाय-येण मु २, २, ३१.
 पक-चित्त-त्ता: सिशि २, ८०; ३.
 १पक-फल^b-
 पकफल-पुष्प-नघ- -श्रा:
 सार २८१: ११.
 पकफल-रस-युक्त- -त्ता:
 सार २८३: २१.
 पकफल-सुगन्ध-रस-
 युक्त- -का: सार २५४: २.
 २पक-फल^c- -ला: सार २८८: २.
 पक-विज्ञान- -नम् त्रिवि ८,
 १३^d; -नात् त्रिवि ५, १०.
 पका(क-अ)न्न- -क्षानि सार
 २२३: ७; २७०: १३.
 पचन- -नम् पै ४, ७.
 पाक- -के ते ६, ७९; सांस् ३, ६३;
 -केन महा ५, १५४.
 पाक-रस- -सम् मु २, २, ६५.
 पाचयित्वा वृ ६, ४, १४-१८.
 पाचित- -तान् सार २२५: २०;
 -तानि सार २३७: १५.
 पाच्य- -वदान् खे ५, ५^e.
 पच्छस्(>)) √पच् द.
 १पञ्चजन^f-
 पाञ्चजन्य^g- -न्यम् य ९; सु २९३:
 १; गो १, १५; -न्येन अव्य ६.
 २पञ्च-जन- पञ्च- -द्र.
 पञ्च^h- -ञ्च क २, ३, १०; रे ५, ३, छां
 ३, १३, १; वृ ४, ४, १०; वृ ४,
 १५, १४; ना ३; त्रिवि ५, १४;
 त्रिमा २, १३६; ह ७: ८; म

२, ४; त्रि १०; लि ३०९: ४;
 -ञ्चभि: मै २, ९; मैत्रि २,
 ६; -ञ्चम्य: सांका २२; -ञ्चसु
 तै १, ३, १; -ञ्चानाम् अना ३६.
 पञ्च-कⁱ- -क: १योत ८४ⁱ; -कम्
 दजा १, १७.
 पञ्च-कर्म(मै-इ)न्द्रिय- -यै: त्रिवि
 ६७.
 पञ्च-कला-
 पञ्चकला-मय- -यम् त्रिता १,
 ३५.
 पञ्च-कृत्य- -स्यस्य नांपू १, १९.
 पञ्चकृत्य-नियन्तृ- -न्तारम् पं
 १६.
 पञ्चकृत्य-रू(प>)पा- -या नापू
 २, ९.
 पञ्चकृत्य-संपन्न- -भ: जावा ९.
 पञ्च-कोण- -णम् कालि ४०१: ८^k.
 पञ्च-कोश-विचर्जित- -त: ते ४,
 ७५.
 पञ्च-कोशा(श-आख्या)> -ख्य-
 -ख्यम् ते ६, ५६.
 पञ्च-कोशा(श-अ)तीत- -तम् मुद्र
 ४.
 पञ्च-क्रिया(या-आ)वृत्त्या-
 (ति-आ)त्मक- -कम् पै १, २३.
 पञ्च-गव्य^l- -व्येन शि २, २३.
 पञ्चगव्य-सम- -मम् शि ६,
 २११.
 पञ्च-गुण^m- -णम् शि ६, २७.
 पञ्च-ग्रह- -हेषु नाप ५, १ⁿ; १संन्या
 २, १३.
 पञ्च-चत्वारिंशत्-
 पञ्चचत्वारिंश- -शे अत् ५.
 २पञ्च-जन^o- -ना: वृ ४, ४, १७.
 पञ्च-ज्ञाने(न-इ)न्द्रिय- -याणि वर

४, १४; -यै: त्रिवि ६८.
 पञ्च-तार्य- -रवानि अद्वै १६.
 पञ्चतत्त्व-विधि- -धिना तारा
 ८३: १३.
 पञ्च-तन्-मात्र^p- -त्रम् सांस् २,
 १७; -त्रस्य सांस् १, ६२; -त्राणि
 मै ३, २; त्रिमा १, ३; त्रिवि २, १४;
 पै १, १७; महा १, १; गौ ४०;
 सार २९१: १९; सांस् १, ६१;
 -त्रेभ्य: त्रिवि २, १४; त्रिमा १, ३.
 पञ्च-तन्-मात्रा^q- -त्रा: मैत्रि ३, २;
 गु ७; भा २२; वर ४, १३; १९.
 पञ्च-तय(>)यी- -य्य: सांस् २,
 ३३; योस् १, ५.
 पञ्च-त्रिंशत्-
 पञ्चत्रिंश- -शे अत् ५.
 पञ्च-रथ- -रथम् गोच ६७: १३.
 पञ्च-दश- -श मुं ३, २, ७; छां ६,
 ७, १; २; वृ १, ५, १४; १५; वृ
 ११^r; २शिसं १४; काम १५.
 पञ्चदश-अङ्ग-आत्मक-
 -कस्य सौ १, १.
 पञ्चदश-कोण- (ग>) गा-
 गा: कालि ४०१: १०.
 पञ्चदश-तिथि-रूप- -येण
 मा २५.
 पञ्चदश-दिन- -नानि त्रिवि
 ३, ४.
 पञ्चदश-नि(त्य>)त्या-
 -स्या: (इत्या^s) भा २५.
 पञ्चदश(श-अ)र्च- -शर्भि:
 सौ १, १.
 पञ्चदश-स्तोत्र- -त्राणाम्
 रा ४२४: १४.
 पञ्चदशा(श-अ)क्षर- -रम्
 त्रिता १, ५५; द २.

अ) सकृत् अप^० इति श्रद्धा. । b) कस. । c) वस. । d) ०^{कं} वि^० इति निसा. । e) प्रा^० इति श्रान. संदि. ।
 f) न्यु: = दैत्यविशेष- (तु. भाग ३, ३, २; ६, १८, १५) । g) = वैष्णवशक्त- । h) वैपश् यद. । i) पा ५, १, ५८ ।
 j) ०म: इति श्रद्धा. संदि. । k) त्रि^० इति तान्त्रि. । l) पावा ५, २, ३७ । m) द्विस. । n) वा. पुं:। स्त्रीत्वपर: शोध:
 द. । o) पा:। यत्रि. शोध: द. (तु. श्रद्धा.) ।

पञ्चदशाक्षरी-री व १९.
 पञ्चदशा(श-अ)र्ण-र्णः रा २, ५१.
 पञ्चदश-शः मैत्रि ७, २; छाग २३: १२; २४: १५; शाम् २ प्र ३२: १३; गार ४०७: ८; १३; शान् कौ १, २; शो अजे ५.
 पञ्चदशी-शी नाप ८, १; महा १, १; श्याम् व ४६२: १०५^१.
 पञ्च-दुःखी(ख-ओ)घ-वे(ग)-गा-गाम् वे १, ५; नाप ९, ४.
 पञ्च-देवता-ता: ते ६, ५६.
 पञ्च-दैवत-तम् घ्या १३; ते योशि १, ७२.
 पञ्च-दैवत्य-त्यम् त्रिवि ४०.
 पञ्च-दोष-घनिर्मुक्त-क्तम् शि ५, १०.
 पञ्च-धा प्र २, ३; ३, १२; सुं ३, १, १; छां २, २१, ३; ७, २६, ३; मना २, ७९५^१; मे २, ६; ९; ५, १; ४; मैत्रि २, ६^१; ६, ४; वृजा ४, २; मन्त्रि १५; त्रिवि ४०; योत ८४; रापूर १०; रा ५, १; पै १, १९; पं२२; २६; चू १५; सिं३; था १९; राधा ४, ४; शि ५, २२; सांका ५३.
 पञ्च-नवति-त्या शि ४, ४.
 पञ्च-पञ्चक-कम् चक ५.
 पञ्च-पञ्चान्-शानाम् व ४४, २१.
 पञ्च-पद-दः गोपू १६; दम् गोपू १२; २३; ३२; ३३; ४६; ४७; दान् गोपू २४^६.
 पञ्च-प(र्व)र्वा-र्वा भव ३, १०; श्याम् वे १, ५; नाप ९, ४.
 पञ्च-पाद-दम् प्र १, ११.

पञ्चपाद-ग्रहान्-क्षणः पत्र २.
 पञ्च-प्राणी(ण-ऊ)र्मि-र्मिम् ये १, ५; नाप ९, ४.
 पञ्च-बन्ध-पञ्चबन्ध-स्वरूप-पेण लि ३०९: ४.
 पञ्च-बाण-सदन-ने व ४५६: २२.
 पञ्च-बुद्धया(द्धि-आ)दि-मू(ल)-ला-लाम् ये १, ५; नाप ९, ४.
 पञ्च-ग्रहान्-ह्य पं २१.
 पञ्चग्रह-मन्त्र-न्त्रः वपं ३११: २.
 पञ्चग्रह-मय-यम् योशि २, १५.
 पञ्चग्रह-स्वरूपक-कम् रुजा २, ५.
 पञ्चग्रहा(स-अ)ग्निहोत्रक-कम् रुह १.
 पञ्चग्रहा(स-आ)त्मक-कम् पं १६; २१; २३.
 पञ्चग्रहात्मिकी-कीम् पं २६^१.
 पञ्चग्रहात्मका(क-अ)दीत-तः पं १७.
 पञ्चग्रहा(स-आ)त्मन्-पञ्चग्रहात्म-तत्त्व-पञ्चग्रहात्मतत्त्व-तत्सु (>) पं २५.
 पञ्चग्रहहो(स-उ)पर्वहार-रम् पं १६.
 पञ्च-भूत-तानाम् योचू ७२; पै १, २१; सांस् २, १०; तानि अद्वैता १२; दे १; व ४, १४; सांका २२; तैपु गोच ६७: १५.
 पञ्चभौतिक-कः सांस् ३, १०; कम् सांस् ५, १०२.

पञ्चभौतिक-स्व-स्वेन वस् ८.
 पञ्चभूत-कारण-णम् मं २, १, २.
 पञ्चभूत-जनक-कम् त्रिता १, ३५.
 पञ्चभूत-मय-ये त्रिना २, १३३.
 पञ्चभूतमयी-यी त्रिना २, ४^१.
 पञ्चभूत-सप्तवाय-यः योचू ७२.
 पञ्चभूता(स-आ)त्मक-कः वरा ५, १; कम् गो ५५^१.
 पञ्च-भूमि-मिम् वरा ४, १४.
 पञ्च-भौम-मम् शि २, १६; ६, १२५.
 पञ्च-अम-निवृत्ति-त्तिः अष १, १५.
 पञ्च-म-मः क २, ३, ३; तै २, ८, १; छां ५, १०, ९; ७, १, ४; हं १६; वृपू २, १४५^१; अक्ष १, १५; ह ८; वृ ८^१; सूता २, १८; नापू १, ५; ५, ६; लि ३ १०: ५; गार ४०६: १०; भव २, २२; ६३; मम् छां ३, १०, १; ७, १, २; १, ७, १; कौ २, ५^१; वृपू २, ४^१; ६; शारी ७; यो १, ५१; योपू ११; दत्ता १, ३; ६; योरा १२; ऊ ६४: ७; नापू ६, ३; वृपू ८४: ४; ७; ८५: ७; शि ५, ११; गार ४०७: ६; ११; २ कौल १२; वपू १, ६; २, १; ३; गी १८, १४; मस्य वृपू ८४: १६; २०; ८५: ४; माव गोपू ३१; मे हं १९; गर्भ ३; अक्ष ५; त्रिता १, ६४;

a) तैआ १०, ६३, १ । b) =पञ्चनक्षरात्- (तु. गपू. २०४A, २०५i) । c) °दीम् इति आन. । d) °दा इति अज्या. संति. । e) वैतु. पा. (४, १, ३३) स्त्री. पञ्च-पर्वन्-> °र्वा- इति । f) तदास्योपनिषदिशेषयोः समाहारे द्रस. । g) प° इति मुपा. यनि. शोधः द्र. । h) °या इति अज्या. यनि. शोधः द्र. (तु. निसा.) । i) °कः इति आन. । j) तैआ ८, ८, १ । k) वा. जुं? स्त्रीत्वपरः शोधः द्र. । l) 'पञ्चमुसम्' इति शांशा ४, ९; अज्या. च । :

म ४९ : ७; सूता ५, ८; निरु १,
१२; राधा २, ४; सार २८७ :
२३; यु १६; -मेन वृष २, ४;
पि ११.

पञ्चमी-मीनाद १०; नाप
८, १; अक्ष ५, ८३; ८८; सार ३,
१; यो २, २०; प्रिता ३, ८;
वरा ४, १; सार २४० : ६;
२६६ : ५; गार ४०६ : ७; यु
३; गुपो ४२१ : २; -मीम् छां
५, २३, १; अलि ३३-३५; गोउ
२६; गुपो ४२० : ११; -म्याम्
छां ५, ३, ३; ९, १; नाद १४४; व
४६२ : १०.

पञ्चमी-कला-रूप- पः
गुपो ४२० : १२.

पञ्चमी-रूप-प-पो १५.

पञ्चम-कूटा(ट-अ)क्षर- -रः
विद्या १.

पञ्चम-चके(क-ई)घ(र>)री-
नी धाप ३९७ : १२.

पञ्चम-मूमि- -म्याम् वरा४, १.

पञ्चम-वक्त्र-हन्- -न्ता श
७^{१०}.

पञ्चम-श्रेणि- -ण्याम् सार
२७० : ९.

पञ्चमा(म-अ)क्षर- -रः राउ १,
२; ता २, १.

पञ्चमा(म-आ)वरण- णम् सार
२८३ : २०.

पञ्चम-कार- -राः २कौल २; -रेण^०
कालि ४०२ : १; १५; इया १५.

पञ्चम-मण्डल-पूरित- -तः वरा५, १.

पञ्च-महापातको(क-उ)पपातक-
-कात् ना ५; मया १२; ग १६.

पञ्च-महा-भूत- -तानि मै ३, २;

मैत्रि ३, २; नाप ६, १; त्रिमा १,
३; त्रिवि २, १४; नापू ५, १३;
अद्वैमा १२, वत ४, २०; -तेभ्यः
त्रिमा १, ३; त्रिवि २, १४.

पञ्च-महा-पक्ष- -क्रिया- -याम्
आध ३^{१०}.

पञ्च-मात्र- -त्रः अना ३१^०.

पञ्च-मात्रा^{११}- -त्राम् शा ६^१.

पञ्च-मुख- -खः वी २, ९; -खम् लि
३१० : ११.

पञ्च-मूर्ति- -धारण- -णम् शां १, ९.

पञ्च-पक्ष- -ज्ञाः शा ११; -ज्ञाम्
शा १२.

पञ्च-योजन-पर्यन्त- -न्तम् सार
२४१ : ७.

पञ्च-योजन-मूमि- -मो सार
२६२ : ३.

पञ्च-योजन-विस्तीर्ण- -णम् सार
२६२ : ११; व ४६६ : ५; -णैः
व ४३८ : ११.

पञ्च-योजना(न-आ)यत- -तः सार
२५५ : १५; -तम् सार २५५ :
१; २६३ : १९; २७० : ३;
२७४ : ५; १९.

पञ्च-योन्यु(नि-उ)प्र-व(क>)का-
-काम् द्वे १, ५^{१०}; नाप ९, ४.

पञ्च-रात्र- -त्रम् नाप ७^{१०}; १संन्या
१, १; पप ४१९ : १३; मि ६;
कष्टु १, १; आश्र ४; -त्रात् निरु
१, ९.

पञ्चरात्र-क^१- -कम् नाप ४,
१४; २१.

१पञ्च-रूप^१-

पञ्चरूप-परित्याग- -त्यात् व
१४.

२पञ्च-रूप^१- -पः गोपू १६; -पम्

सूता १, २५.

पञ्च-रुद्र- -क्षम् शि ६, २३९.
१पञ्च-वक्त्र^१-

पञ्चवक्त्र-युत- -तम् १योत
१००.

२पञ्च-वक्त्र^१- -क्त्रः रुद्रा २, ५;
-क्त्रम् मं १, ४, १; रुद्रा २, ५.

१पञ्च-वर्ग^१- -र्गाः ससा १, २२;
-र्गाणाम् ससा १, २२.

२पञ्च-वर्ग^१- -र्गः ससा १, ३.

पञ्च-वर्ण- -र्णः सार २, ८४.

पञ्चवर्ण-क- -काः सार २, १६.

पञ्च-वर्ष-सहस्र- -स्त्राणि शि ६,
२३.

१पञ्च-वायु^१- -युभिः प्रा १, ६.

२पञ्च-वायु^१- -युः मैत्रि ६, ९.

पञ्च-वार- -रम्^१ वत ६, २२.

पञ्च-विंशत्-

पञ्चविंशत्-तम्^१- -मः सार
२९१ : २०.

पञ्चविंशद्-योजना(न-आ)-
यत- -तम् सार २३३ : १८;

-ते सार २३४ : १.

पञ्च-विंशति- -तिः महा १, १;

सां १, ६१.

पञ्चविंशति-तरव- -रवानि

नाप ६, १.

पञ्चविंशतितरवा-

(त्व-आ)मक- -कः नापू ५,
१५.

पञ्चविंशति-योजना-

(न-आ)यत- -तम् सार २६२ : ३.

पञ्चविंशति-रात्र- -रियात-

-तः निरु १, १०.

पञ्चविंशति-वत्सर- -रम्

नाप १^१ : २.

a) °मा इति अख्या. । b) पञ्चवक्त्र^१ इति निसा. यनि. शोधः द्र. (द्र. अख्या.) । c) समाहारे द्विस. ।
d) °याः इति अख्या. संदि. । e) °प्राणि इति अख्या. । f) °त्राः इति अख्या. । g) °वक्त्रम् इति निसा. यनि. शोधः द्र.
(द्र. आन.; वैतु. °चक्रम् इति आन. संदि.) । h) भूयसः पांभ. कृते द्र. अख्या. । i) °पञ्च-रात्रक-^१ इति MW. ।
j) द्विस. । k) वस. । l) वा. किंवि. द्र. । m) विकल्पित-तमदागमो ढट् प्र. (पा ५, २, ५६) ।

पञ्चविंशतिवत्सर-
पर्यन्त-न्तम् नाप २.
पञ्चविंशति-वर्णक-कः
रार २, ७६.
पञ्चविंशत्य(ति-ञ्च)क्षर-
-राणि द्व २.
पञ्चविंश-शे अत्र ५.
पञ्चविंशक-कः गौ २, २६;
मं १, ४, ३; मव २, ३२; -कम्
निरु १, २०; शि १, १२.
पञ्च-वि(धा)>घ-घः शां १, ८;
अत्र १, १३; भा १८^b; १९^b;
-घम् छां २, २, १; ३; ३:७, १; २;
१मंन्या २, ६५; -घस्य छां २,
७, २.
पञ्च-विपय-व्याणि सांका ३६.
१पञ्च-वृत्ति^a-
पञ्चवृत्तया(भि-ञ्च)भमक-कम्
पै १, २२.
२पञ्च-वृत्ति^d-सिः त्रसृ २, ४, १२.
पञ्च-वृद्धि-द्वया यो १, ५५.
पञ्च-व्याहृति-
पञ्चव्याहृति-मय-यम् गोपु
२९.
पञ्च-शत-तम् वृजा १, १६;
२०; -तानि कौ १, ४.
पञ्च-शास्त्रा^e-खाः सी २५.
पञ्चशाखा-सुशोभित-तम्
शि ४, ४.
पञ्च-शाला(ला-ञ्च)ण्डक-कैः शि
६, १३६.
पञ्च-शि(खा)>ख^f-खः सांस् ५,
३२; ६, ६८; -खाय सांका ७०.
१पञ्च-शीर्ष^g-वैण व ४३४: ११.
२पञ्च-शीर्ष^h-
पञ्चशीर्षो(र्ष-ञ्च)पनयन-ने
मना २, ३५९ⁱ.

पञ्च-संस्कार-युक्त-कानाम् सु
२९५: १.
पञ्च-संस्कार-संस्कृत-तम् सु
२९४: २१.
पञ्च-सप्त-गृह-हाणाम् १संन्या
२, ६१.
पञ्च-संमारजनी-तोय-यम् शि
६, ५८.
पञ्च-सूक्ष्म-भूत-तानि वउ ४,
२०.
पञ्च-सूत्र-ग्रम् लि ३१०: १२.
पञ्च-स्थान-ने वृजा ४, १२.
पञ्च-द्योत(सु):-समन्वित-
-तः शां १, ३९.
पञ्च-स्रोतो(तस्-ञ्च)सु-सुम्बुधे
१, ५; नाप ९, ४.
पञ्च-स्वरूप-पम् लि ३१०: ८;
१२.
पञ्च-हस्त-समुच्छ्रित-तम् शि
४, ९.
१पञ्चा(ध-ञ्च)क्षर^a-राणि काम ३.
पञ्चाक्षर-मय-यम् पं २४.
२पञ्चा(ध-ञ्च)क्षर^b-रः म २, ४;
२८; -रम् त्रिता १, ३५; म २,
२८; नापू ३, ६; ता १, २; पं
२५; रार ३, १; व १; लि ३१०:
१२; -रे सिशि ३८२: ६; -रेण
वृजा ६, ७.
१पञ्चा(ध-ञ्च)शि^c-शिन^d पं १०.
पञ्चाभि-योग-
पञ्चाभियोग-तस(>)
सांस् ४, २२.
पञ्चाग्नि-रूप-पम् योशि ५,
३५.
पञ्चाग्नि-रूपक-कम् योशि
५, २८.
२पञ्चा(ध-ञ्च)गिन^e-गनयः क १,

३, १.
पञ्चा(ध-ञ्च)ङ्ग-ङ्गम् गोपु १२.
पञ्चा(ध-ञ्च)ण्डक-विभूषित-
-तम् शि ४, १२.
पञ्चा(ध-ञ्च)भमक-कः गर्भ ३^f;
-कम् गर्भ १^f; पं २५; नाप ९,
१८; १योत १०; योशि १, ८;
-कस्य सिशि ३८१: ८; -के खे २,
१२; गर्भ १; पिं ३.
पञ्चाभिमका-का गर्भ ३^f.
पञ्चाभमक-ता-ताम् पं २६.
पञ्चा(ध-ञ्च)भन्-भ्यामना २,
७९६^m.
पञ्चा(ध-ञ्च)यवै-शीर्ष-जप-
फल-लम् दे २०.
पञ्चा(ध-ञ्च)धिकरण-णैः रा
४२६: २.
पञ्चा(ध-ञ्च)सृतⁿ-तम् वउ ६,
२१.
पञ्चासृत-पात्र-त्राणि वउ
६, ११.
पञ्चा(ध-ञ्च)र-रम् वृष ८४: ४^o.
पञ्चा(ध-ञ्च)र्ण-र्णैः रार २, १०;
-र्णम् द ४.
पञ्चा(ध-ञ्च)र्ष-तरव-विद्वस-
-दुपाम् सु २९४: २१.
पञ्चा(ध-ञ्च)वयव-योग-गात्
सांस् ५, २७.
पञ्चा(ध-ञ्च)वर्ष-वर्षा-तम् सौ ३,
१; -वर्षम् धे १, ५; नाप ९, ४;
योरा ९.
पञ्चा(ध-ञ्च)वस्या-स्वरूप-पम्
सु २९४: २२.
पञ्चाशत्^p-नात् वृजा १, २२^o;
सु १, १, १३; हंयो १७; सांका
४६.
पञ्चाशत्-कोटि-योजन-नम्

a) वृ. टि. एकविंशक-। b) 'पञ्चघा' इति तान्त्रि.। c) द्विस.। d) वस.। e) 'अद्वयम् इति श्रव्या. संदि.। f) =पञ्चाशत्-(वृ. उत्र.१)। g) =सांख्यार्चविशेष-। h) विप.। i) तैश्चा १०, ३५। j) समाहारे द्विस.। k) °कसमर्थः इति श्रव्या.। l) °लमकतेजसा इति श्रव्या.। m) तैश्चा १०, ६३, १। n) पा ५, १, ५९। o) पा.१ (वृ.उत्र.१)।

राधा १, ४.
 पञ्चाशत्-स्वर-वर्णा-
 (सी-आख्या) > ह्य- ह्यम्
 पं ११.
 पञ्चाशद्-अक्ष- -क्षे अक्ष ५.
 पञ्चाशद्-दल-पद्म- -मम्
 त्रिवि ७, ४६.
 पञ्चाशद्-मे(द>)दा- -दाम्
 श्वे १, ५; नाप ९, ४.
 पञ्चाशद्-वर्ण-विग्रह- -हेण
 त्रिता ४, ३५.
 पञ्चाशद्-वर्ण-संयुक्त- -क्तम्
 पं ४.
 पञ्चाशान्-मानृका- -का(ईकाः)
 अद्वैता १२.
 पञ्चाशान्-मानृकामन्त्रवर्ण-
 प्रत्येक-पूर्वक- -क्तम् रार २,
 १७.
 पञ्चा(ध-अ)-
 पञ्चादिक- -क्तम् व ४३३: १७.
 पञ्ची/कृ
 पञ्ची-करण- -णम् त्रिवा १,
 ९; षो वत ४, २०.
 पञ्ची-कृत-
 पञ्चीकृत-भूत- -तानाम् पै
 ३, १; -तानि वरा १, ५; -तैः पै
 १, २०.
 पञ्चीकृत-महा-भूत-
 लेना- -शान् पै २, ४.
 पञ्चीकृत-महाभूत-संभ-
 व-कर्म-संचित-स्थूल-देह-
 -हः पै ३, १.
 पञ्चीकृत-स्वा(स्व-अ)-
 वयव- -वैः नाप ९, १८.

पञ्चीकृता(त-अ)नन्त-
 भव-प्रपञ्च- -ञ्चम् नाप ९,
 १८.
 पञ्ची-कृत्य कर १५.
 पञ्चे(ध-इ)न्द्रिय- -यस्य भव ४, ४.
 पञ्चे(ध-इ)ष्ट(का>)क- -कः मैत्रि
 ६, ३३.
 पञ्चो(ध-अ)पचार^१- -रैः त्रिवि ५,
 १२.
 पञ्चमा^b यो २, २०.
 पञ्चाल^c- -लानाम् छां ५, ३, १; वृ६,
 २, १.
 पञ्चाल-चण्ड^d- -ण्डः २ प्र ३५ :
 १९.
 पञ्जर^e- -राट् महा ५, ६७; -रे योशि
 ६, १७.
 √पठ्(वधा.)
 पठ^f- -टः पै १, ९; -टात् अज ३,
 ६; -टानाम् स्व ६०: ३; -टे
 शि ६, १२१; -टैन मै २, ११;
 मैत्रि २, ७; -टैः शि ६, १३६.
 पठ-गर्म- -र्मम् शि ६, २५६.
 पठ-द्वय- -यम् शि ४, २.
 पठ-नामन्- -ना योशि ४, १७.
 पठ-मध्य- -यम् वरा ५, २९.
 पठ-वत् वरा ५, २८; वस् २, १,
 १९.
 पठ-संबुत- -त्तम् शि ६, १५१.
 पठु^g- -टु ते ४, २४.
 पठु-मति- -तिः त्रिवा २, १०७.
 पठ्व(ड-अ)भि- -भिः शां १,
 ७, १४.
 पठ्वि(ड-इ)न्द्रिय- -यः त्रिवा
 २, १०७.

१पठ^h-
 पठ-कⁱ- -के शि ६, १४४.
 २पठ^j-
 पठ-दोरि-प्रथित-सुवर्ण-वटि-
 (का>)क- -कः सार २६७: १७.
 पठ-पट- -टान् १ संन्या २, ९५.
 ३पठ^k-
 पठ-रात्री- -र्यः सार २४१ :
 १०; १२; २४२: २३.
 ४पठ^l-
 पठ-द्वय- -यम् शि ६, १४९.
 पठीस^m- -सानि शि ६, ७९.
 √पठ्, पठति मैत्रि ६, ९; ध्या ९३, ११;
 त्रिवि ८, २३; सू ३१; स ३७९ :
 २२; पठन्ति मना २, ३८५ⁿ;
 ३९५ⁿ; मन्त्रि १०; राष्ट्र ५, १०;
 सु १, १, ४२; वि २२; चू १०;
 पठतु १ अव २४; पठ सु १, १,
 २७; २९; पठेत् अना ११;
 नाप ५, १; द२; सू २९; दे२१;
 कर १; प्रा ४, १; ह १९; गरु
 २५; सु १, १, ५०; लां २१६:
 २१; गार ४०८: १६; व ४६२:
 ११; १कौल ८: १; तारा ८३: ७.
 पठ्यते मन्त्रि ११^o; सु १, १, ४^o;
 २शितं २२; स ३७९: ७; भव
 ३, ६; चू ११.
 पठ्व- -उताम् सु १, १, ४६; -उत्र
 अक्ष १, ३४; कलि ३; इ १०: ९; १०.
 पठन- -नाट् नाट ३, १४; वि २६.
 पठित- -तः त्रिवि ७९^r; -तानि नाट
 ३, १७.
 पठित-सिद्ध-विधा- -धाम्
 चा १.

a) पा. ? यनि. शोषः द्र. । b) निता. अश्या. च पा. ? 'पञ्चमम्' इत्येतत्परः शोषः द्र. । c) = जनपद-
 विशेष- (तु. शं., रामा.) । d) = ऋषिविशेष- । e) व्यु. ? = अस्थिसंपात- । f) = वस्त्र- । धा. प्रत्यये श्रुतिः ? ।
 g) धा. गती श्रुतिः । h) = वाहनविशेष- (= पत्त्र-) । सः प्र. उसं. (वाट ३, ८६) । i) = कौशेय- । धा. भाषणे श्रुतिः
 उसं. । j) विप्र. = मुख्य- । धा. भाषणे श्रुतिः उसं. । k) = फलक- । धा. पाठने श्रुतिः । l) व्यु. ? = फलविशेष- ।
 m) तैश्वा १०, ४८, १ । n) तैश्वा १०, ४९, १ । o) 'पठन्ते' इति संटि. । p) 'पद्यन्तः' इति निता. अश्या. च
 मुना. यनि. मु-नोषी (तु. आन.) । q) 'पठते' इति निता. । r) 'पठितः' इति अश्या. ।

पठिवा १योत १; २योत १, १; प्रिता
१, २७; व ४६२: ११.
पड्दीना^१-
पड्दीना-दाहक- हङ्क्व् छां ५, १,
१२; ६, १, १३.
पड्दी(राक>)दिका^१- काभि:
आर्वे ७: ६.
पणव^१-
पणवा(व-आ)नक-नोमुख^१- स्वा:
गी १, १३.
पण्डित, ता^१- -तः छां ६, १४, २; वृ
६, ४, १८; कै १, ११; भव २,
१५; -तम् भव १, ९; गी ४, १९;
-ता वृ ६, ४, १७; -ताः वृ ९,
१७; महा ५, १७६; जाद २, ४;
गी २, ११; ५, ४; १८; -ते या २,
१६; -तैः भव १, ३२.
पाण्डित्य- -त्यम् वृ ३, ५, ११;
भव १, ५८; -न्यात् योशि २, ३;
-त्येन मुवा १३.
पाण्डित्या(त्य-अ)र्थे- -र्थे
कालि ४०३: १२.
पण्डित-मानिन्- -निनः सार
२३५: ११.
पण्डित-मन्यमान^१- -नाः क १, २,
५; मुं १, २, ८, मैत्रि ७, ९.
पण्डित-लक्षण-पाम् महा ५, १७१.
पण्डित-शास्त्रिन्- -शिक्षणम् भव
१, ५; ८.
पण्डितो(त-उ)त्तम- -म जाद ४,
४३.
√पत्(पती)>पाति, पतति के १, १;
वृ ४, ३, २०; मै ४, ३; ष्या ७२:

योच् ५१; महा ५, ७०; योशि
५, ४१; १संन्या २, ९६; अदि
१५; ३७; शा ९; मु २, २, २३;
पतन्ति छां ५, १०, ९; गी ४,
४६; महा ५, १४४; छाग २५:
१४; स्व ६१: १९; भव १, ५४;
गी १, ४२; १६, १६; पत गक
१११; अपतत् महा १, १; च
२०: ३.
पतिप्यामि मना २, १११.
पातयति भ १, ९; २, ३०; अपा-
तयत् वृ १, ४, ३; पातयेत् १संन्या
२, ३; कुं ४.
पतत्- -तन् महा ६, ३४.
पतन्ती- -न्तीम् शि ४, ५५.
पु^१पतत्र- -त्रैः खे ३, ३; मना १, ३;
त्रिवि ६, १३; रु ३; २शिसं २६.
पतत्रिन्- -त्रि ऐ ५, ३.
पतन- -नम् योशि १, १६२; भव
१, ३; १४.
पतना(न-अ)नुमान- -नात् व्रच्
३, ४, ४१.
पतन्त^१- -न्तः पा ९, ५.
पतित- -तः मैत्रे २, १९; ते ६, ९७;
नाप ३, १; २; १२; योशि १, ६४;
१संन्या २, ३; भ १, ७; वरा २,
६७; -तम् वृजा ३, १; १संन्या
२, २; ७४; ते ६, ९७; -ताः १योत
६; योशि १, ४; रुजा १, १; २;
-ताम् १संन्या २, २; -ते महा ६,
२६; -तैः सिसि ३८३: ४.
पातित्य- -त्यम् नाप ३, ११.
पतित-संमापण- -णात् रुजा ३,

१; सू २८; ह १२.
पतिता(त-आ)दि- -दयः मैत्रि
७, ८.
पतिता(त-अ)भिदास्त-वर्जन-
पूर्वक- -कम् १संन्या २, १३.
पतित्या छां ६, ८, २.
पात- -तः पा ५, १०; -ते व्रच् ४,
१, १४.
पात-भीत- -तस्य भव १, ७.
पातयत्- -यत् भव १, १७.
पातित- -तम् व्रवि ४४.
पतङ्ग^१- -ङ्गः छां ६, १, ३; १०, २; खे
४, ४; कौ १, २; -ङ्गाः वृ ६, २,
१६; गी ११, २९.
पतङ्गि(व>)नी^१- -नी नाद ९.
पतञ्जल^१- -लः वृ ३, ७, १; -लम् वृ
३, ७, १; -लस्य वृ ३, १; ७, १.
पतञ्जलि^१-
पातञ्जल- -लाः सार २७३: १२.
पतचृ^१- -चरे पा ७, १०.
१पति^१- -तयः खे ५, ३; मना २,
५४; योच् ७२; पा ६, ८१;
भव १, २६; -तिः प्र २, ९; सुं
१, २, ५; छां १, २, ११; वृ १, ३,
२०; २१; ४, ३; २, ४, ५; ४, ५,
६; खे ६, ९; मना १, ९१; २,
५५; ते २, १३; पाशु १, ५;
जाद ४, ३९; शु ६८; व ४६४:
११; भव २, ४४; -तिम् तै
१, ६, ३; खे ६, ७; मना १,
४१; २, १३, ११; २, ३०; ११;
वृजा ६, १; नाद १५; रापू ४,
१२; महा १, १; पा १, ५; ७, ९;

a) वैप १ यद. । b) व्यु. १ = वादविशेष- । c) व्यु. १ । d) पूर. द्वि. अलुक् ३. । e) मा १२, ४ । f) तैश्वा १०, ९, १ । g) अष्ट १०, ८१, ३ । h) ह्य>भन्तः प्र. उत्सं. [पाठ ३, १२८ (वैतु. पाटी. पत्ते पतव- > -तन्तः)] । i) =प्रणतिः (तु. पाटी. । j) बच्च. सत् बन्वु. प्राति. वैप १ यद. । k) 'पतङ्गी' इति श्रान. । l) =शास्त्रकारविशेष- । m) पा. १ =प्रदातृ- [वैतु. पाटी. पत- (=पतन-)+वृ- (=त्रावृ- इति)] । n) पा. १ √पठ्>पति>पतयत्-> -यत् इत्येतत्परः शोधः ३. [तु. सस्य. विकृवत्-> -वन् (वैतु. शं. प्र. यनि. =पतीवृ इति)] । o) अष्ट १०, १२१, १० । p) अष्ट १०, १५२, २ । q) मा ३२, १३ । r) तैश्वा १०, ११, १ । s) षतिः (तु. तैश्वा १०, २३, १) इति मुवा. यनि. शोधः ३. (तु. सा.) ।

हे १४; सु ६६; ९^व ४४२;
८; ४४७: १४; ४५२: १;
४५५: ६; -तीनाम् श्वे ६, ७;
सु ६६; -०त्ते छां १, १०, ७;
-र्या वृ ६, ४, १९; -र्यु: वृ २,
४, ५; ४, ५, ६; व्रसू २, २, ३७;
-र्ये सर २, १९^०.

पसी- स्त्री वृ १, ४, ३; ४, २, ३;
मना २, ८०^०; प्रा ३, १; ४, १;
-धीम् कामे १.

पत्नी-पुत्रा(त्र-आ)दि-सं-
युत- -त्त: शि ५, २५; ७, १७.
पत्नी-संयाज^१- -जा: प्रा ३,
१; ४, १.

पति-मता- -ता: अरु २८^०.

पत्या(ति-आ)दि-शब्द- -द्वेभ्यः
व्रसू १, ३, ४३.

२पति(२महान्- > -काणः)- -ति: वृ १,
३, २१^०; मना २, ३०^०; वृ २,
१७^०; प्रा १, ६९^०; -तिम् वड
५, ३०; -०त्ते मना १, ११^०;
त्रिता ३, २८^०; सु २९, ३: १७^०;
लिं ३१०: १९^०; वड २९: १०^०.

३पति(रि- > रायः)- -०त्ते वपु १, ३.
पत्तन^१- -नम् रापु ४, २२; -ने नाप
४, २०; ७^०; पप ४१९: १३.

पत्न- ✓पद् ४.

प(त्र- > प्र^१)- -नम् वृ ३, ३, २; ते ६,
२२; व ४५९: २; गो ९, २६;
-यागि वृ ५, ७; -त्रेषु वृ ५,
८^०; रापु ४, ५१; -त्रै: वृ ५, ७;
भ २, २१; सार २२२: २०; २३३:
८; १२; २४२: ५; २५४: १;

२८१: १२; शि ६, ४४.

पत्र-कूर्च- -चैन अक्ष ४.

पत्र-पुष्प- -र्यै: सिशि ३८३: ४.

पत्र-पुष्प-मूल्य- -ल्यानि शि ७, ५२

पत्र-पुष्प-वस्तु- -स्तूनाम् शि ६,
२५३.

पत्र-पुष्पा(ष्प-अ)क्षत- -तै: वि ७.

पत्र-पुष्पे(ष्प-इ)न्धन^३- -नम् शि
७, २६.

पत्र-वेच(न >)नी^१- -नीम् शि ६,
२३८.

पत्र-संख्या- -ख्या शि ६, ८६.

पत्रा(त्र-अ)क्षा(क्ष-अ)क्षि-कम-
'षडलु-भावा(व-अ)भाव-

दहन- -नम् निर्वा २९८: ११^०.

पत्रा(त्र-अ)हकुर- -रै: सार २२९: ७.

पत्रा(त्र-अ)घ- -रै: शि ७, ४८.

पत्रा(त्र-अ)स्तर-
पत्रास्तरित^०-

पत्रास्तरित-पाद- -द: शि
७, ४८^०.

✓पथ्

पथ^०-

पथ-गत- -तान् व ४३४: १७.

१पथिन्^१-

१पथ्- पथ: क १, ३, १४; वृ ४,
३, १०; ६, २, २; छाग २४: १९;

या ६; पथा वरा ४, ४१; इ १२:
९; पथि श्वे २, ५९^०; योशि १,
१३२; १५७; सु २, २, ६; शि ७,
३२; भव १, ४७; गो ६, ३८;

पयो: छां ५, ३, २; १०, ८.

पथिक^१- -कस्य महा ३, ६;

-कै: योशि १, १५७.

पथ्य, ध्या^१- -थ्यम् योचू

६८; भव ४, १९; -ध्या श्वे २, ५.

पाथेय^१- -यम् १ संन्या २,
९२.

पाथेया(य-अ)र्थ- -र्थम्
शि ६, १६५.

१पन्था- -न्था: सुं १, २, १; ३,
१, ६; छां ५, १०, २; वृ ४, ४, ८;

९; श्वे ३, ८९^०; ६, १५९^०; मना
२, ७९^०; कै १, ९; जा ५;

अशि ५, १५; त्रिवि ४, ५९^०;

नाप ९, १९^०; शां १, ७, २२; पप
४१८: १७; यो ३, २; मवा ९९^०;

या २, १; हे ८; कालि ४०२:
१६; योसू ४, १५; -न्थाम् मना

२, ४६^०; नापु ४, १२^०; वा २२.

पन्थान्- -न्थान: वृ ४, ३, १०;

-न्थानम् वृ ६, २, २; कौ १, ३;

मैत्रि ६, २९; छाग २५: ६^०;

शि ६, २७९; -न्थानौ वृ ६, २,
१६; मैत्रि ६, १; वरा ४, ४२.

२पथिन्^१-

२पथ्- पथ: वृ २, ६, ३; ४, ६, ३.

२पन्था- -न्था: वृ २, ६, ३;

४, ६, ३.

✓पद्^१(बन्धा), > पादि, पद्यन्ते आर्थे ८:

१५; पद्यसे वृ ५, १४, ७; गा
२२^०; पद्यस्व व ४६४: १५^०.

९^० पदीष्ट व ४४०: १२; ४४५:
१८; ४५०: १७; ४५४: २.

a) श्र १, ८९, ५। b) श्र १०, ७१, ४। c) तैश्चा १०, ६४, १। d) तैश्चा १, २७, ४। e) तैश्चा १०,

२३, १। f) श्र १, ४०, ५। g) तैश्चा १, १८, १। h) श्र २, २३, १। i) श्र ९, ८३, १। j) व्यु: ? = नगर-।

k) 'नगरं' इति श्रम्या। l) व्यु: ? = पर्ण- प्रयुः। m) समाहारे हस। n) 'लु: मा' इति निशा. यनि.

शोध: द. (श्र. श्रम्या)। o) इत्थं प्र. (पा ५, २, ३६)। p) पात्रा^० इति मुपा. यनि. शोध: द.। q) वैपरी यद.।

r) श्र १०, १३, १। s) पा ५, १, ५५। t) पा ४, ४, १२। u) पा ४, ४, १०-४। v) मा ३१, १८। w) तैश्चा १०,

६३, १। x) तैश्चा ३, १२, ७। y) श्र १०, १८, १। z) श्र १०, ७१, ६। a') 'पन्थाम्' इति वे.। b') = गोत्रप्रवर्तक-

श्रपिबिरोध-। व्यु: ? पात्र. निर्दिष्टस्य सतः १पथिन्- इत्यस्य प्राति. वस्तुस्थित्यनुपदः प्रपथः। c') '०त्ते' इति मुपा. यनि.

शोध: द. (श्र. नापु)। d') तैश्चा ४, ३८, १। e') श्र १, ३८, ६।

पल्लु- स्त्री पा ८, ४.
 पद्- -दम् क १, २, १५^१; १, ७-९;
 २, २, १; वृ ५, १४, १^१; २^१; ३^१;
 ५; ६^१; अना ध; अक्ष १, २७;
 २, २२; ३३; ४१; ३, १; २४;
 ४, २२; ६५; ६८; ७३; ७५-७७;
 ५, ४३; ५०; ५१; ५४; अवि
 ध; अशि ५, ११; १२; १४^०;
 आरुप^१९^१; ऊदध: १०९^१; कुं९;
 २०; कै २, ५^१; गा २-६; ७^१;
 ८; १०; १९; २०; सु ३९^१; गोच
 ६७; १३; गोपू १ १; २१; २७९^१;
 ३१; ३२; ता ३, ९^१; ते १, ५;
 २, २१; ४, १३; ६, ४; ४३; ५०;
 त्रिता १, ४२; ४६; ४, १८९^१;
 २०^१; ५, ४; २०; २१; त्रिवि १,
 ११; ७, १७; द १^१; २^१; ६^१;
 ७^१; १२^१; ध्या २; २५; १०५;
 ना ३^१; नाद १५; ४७; ४९;
 नाप ३, ७८; ९, २०; नापू १,
 १६; ३, ३९^१; नि ३; १०; ४८;
 ४९; वृपू १, ६; १०; ४, ८; ५,
 २०; २१९^१; पं २०; पत्र ३, २;
 पा २, १; ८, ५; पाशु १, २४;
 पित्र ६, २०^१; पी ४२२; १; पै
 ४, २१^१; २३^१; २३ ३४: २०;
 २२; २३; ३५: २; वृजा ८, ६^१;
 ९^१; व २; व्रवि ध; व्रवि ध२;
 ५४; मव १, ४४; २, १२; ३, ५;
 ३२; ५, २३; मं ५, १, ५; मध८:
 ६; मना २, १३, १९^१; महा ३,
 ४; २३; ४, २८; ६०; १२; १०३;
 १०४; ५, ४१; ४३; ४८; ६०;

११४; ११५; १७२; ६, ३३; ५३;
 ७३; ७८; सु २, २, ४; २१;
 ७७^१; मै ध, २; ४, ७; मैत्रि ध,
 २; ६, २६; ३४; मैत्रे १, ४, १;
 या २, २४; यो ३, ५; १६;
 योचू ६२; १योत ६; ७; १७;
 १३६; १४०; २योत १, ७;
 योशि १, ३; १५; १३६; ६,
 २१९^१; ७८; राउ ५, २९^१;
 राधा २, ९; रापू ५, १०; रार
 २, ५६; ६३^१; ६४; ७३^१; ७५^१;
 ८६; ८८; व ध३६: १४; धध३:
 १६९^१; धध२: २९^१; धध३:
 १९^१; वउ ५, ३०; वरा २, १४;
 ३, ६; ध, ३८; ४१, ५, ७६^१; वा
 ३२; शां १, ७, १५; ३७; सि १,
 २१; ७, ४२; शु ३, १०; सं सा^१;
 १संन्या २, ५५; स ३७८: ८;
 सु २९४: १२९^१; सुवा ६^१;
 १३; सूता १, ३३; ३, २; सौ २,
 १९; स्क १४९^१; १५९^१; गौ १,
 १५; ४, २८; ७८; ८५; १००; गी
 २, ५१; ८, ११; १५, ४; ५; १८;
 ५६; -दयो: वृजा ध, २२; -दा
 मना १, ४९^१; वा ३७९^१; -दानाम्
 त्रिता १, २६; -दानि अन्व२; ग
 ६; द १, नापू ५, ३२९^१; मध२: २;
 सर २, ६९^१; योशि ३, ६; -दाय
 वृ ५, १४, ७; अक्ष १, ३०; गा
 २३९^१; -दे वृ ५, १४, ४; अक्ष
 ध, २०; २४; ७४; गा १०; त्रिना
 २, ९^१; पै ध, १९; वा १; महा
 २, ७७; ध, ७२; १०३, ६, ३२;

वरा २, ४३; ४, २९; हे ५; -दे-दे
 ऊद३: ८९^१; पा ५, १०; मना १,
 ८९^१; वध५८: ८; धध४: १०९^१;
 -देन वृ १, ४, ७; -देम्य: योशि
 ३, ६.
 पद-कमल- -लयो: मव२, ३५.
 पद-क्रम-समन्वित- -तम्
 मन्त्रि १०; चू १०.
 पद-द्वय- -न्यम् रार २, ७८^१.
 पदद्वय-द्वि-भावृत्ति- -ले:
 रार २, ५७^१.
 पद-न्यासा(स-ञ)रिष्ट- -ष्टम् व
 ध३३: ९.
 पद-पांसु- -सुम् व्रवि ३०.
 पद-विद्- -वित् वृ ध, ४, २३;
 इ १२: १३.
 १पद्(वि)>वी^१- -वी: ए २;
 -व्य: पं ३१२: १९.
 २पद्-वी^१- -वृ^१वी: मना २, १२,
 १; २, ४०; व धध२: १९;
 धध८: २; धध२: ९.
 पद-व्योमा(म-अ)नुस्मरण-
 -गम् मैत्रि ६, ३४.
 पद-संप्राप्ति- -सि: सु २, २,
 ११; -सौ सि ७, ११.
 पदा(द-अ)न्तर- -राणि महा
 ५, २.
 पदा(द-अ)र्थ- -र्थ: महा ६, ४२;
 -र्थस्य महा ६, ४२; अक्ष ध,
 ४६; सु २, २, ५७; -र्या: ते ६,
 २२^१; -र्यान् पा ३, ९; -र्यानाम्
 महा ५, ३२; ६, ४१; अक्ष ५,
 ५; वरा ध, ८.

a) वैतु. पाठो. पद्- + ऋ-($\sqrt{\text{पद्}}$) इति । b) वप्रा. । यत्र शब्दरामकेऽर्थे वृत्तिः (द्र. ना ३^१ प्रथ.), तत्र $\sqrt{\text{पद्}}$ शब्दे (पाधा. उस्ते.) इत्येवं व्यु. सुवचा स्यात् । c) 'पद्मनामकम्' इति आन. । d) ऋ १, २२, २०; २१ । e) ऋ १, २२, २० । f) 'फलम्' इति आन., अख्या. । g) स्थलद्वय इतः प्राक् २^१ इति इत्यस्य लोपः द्र. । h) इत्यत्र प्राक् २^१ इति इत्यस्य लोपः । i) ऋ १, २२, १७ । j) 'प्रसुम्' इति तैश्चा १०, ११, १ । k) ऋ १, २२, २१ । l) 'पद्मानि' इति ना ३२, ९ । m) ऋ १, २२, १८ । n) ऋ १, १६४, ४५ । o) माशना १४, ८, १५, १० । p) तैश्चा १०, १, ८ । q) सामर्थ्यादादितः =^१इति^० द्र. । r) 'द्वयैः' 'वृत्तैः' इति अख्या. । s) व्री. =मार्ग- । t) वैपरी यद्र. । u) ऋ २, ९६, ६ । v) 'र्थम्' इति अख्या. ।

पदार्थ-धी-धीः १आ ६.

पदार्थ-निचय-यात् अक्ष
५, १०६.

पदार्थ-प्र-विभाग-ज्ञ-
-ज्ञः अक्षि १२.

पदार्थ-भावना-ना महा
५, २५; ३३; वरा ४, १; २; ९.

पदार्थभावना-दाढ्यं-
-ढ्यं महा २, ४१.

पदार्थ-वृन्द-न्दे अक्ष ५,
६९.

पदन-

पदनीय-यम् वृ १, ४, ७.

पाद्-

पाद्-इत्^b-दिते पा ५, १०.

पाद्^c-दः मां ३-५; छां ३, १२,
६९^d; १८, २९; ३-६; छ, ५, २;
६-८, ३; गार ४०६: ४; ५^e; ६; गु
१८९^f; त्रिवि १, ९; छ, ९^g०;

नाप ८, ९; १०; वृ १, ६-८;
३, १-५; वृ २, २^h; प्रा ४,
१; १थोत ११४; राठ ३, १ⁱ;
वठ १, ६; ८; १०; वपू १, ७^j;
सावि १०^k; -दम् छां ४, ५, २;
३^l; ६-८, १; ३; ४^m; गर ५;

त्रिवि १, ११; घ्या ९३; वृपू
१, ३ⁿ; ८^o; भय ५, १०; योचू
६६; १थोत ११२; रा२२, ८३^p;
व ४५८: ७; वपू १, ६^q; २, १^r;
शां १, ३, ४; शि ७, ४७; सुवा
९^s; -दयोः ते ३, १०, २;

छाग २५: १५; जाद ४, २९;
त्रिमा २, ८१; नाद ३, नाप ६,
१; मृजा ४, २४; राधा ३, ११;
रा२, ११; २३; -दस्य लु १२;
१थोत ११२; -दाः मां ८^t; वृ

३, १, १; गार ४०६: ३; ४; वृपू
१, ४; २, ३; ४; मना २, १२,
२९^u; मै ५, ६; मैत्रि ६, ६; वपू
१, ७; शौ ५३: १४९^v; गौ १,
२४, २, २१; -दात् अव्य^w; -दात्
अ ३; वृजा ३, ३२; -दाभ्याम्
कौ १, ७; ३, ६; श ५; -दाय
पा ५, १०; -दे व ४५६: २२; शां
१, ७, ५२; सुवा ५; -देन कौ १,
५; -देषु त्रिवि १, ९; वृ ३, २-५;
-दैः अव्य ५; -दौ प्र ४, ८;
छां ५, १७, २^x; १८, २; वृ २, ४,
११; छ, ५, १२; अशि ३, १०;
आच ८; कौ १, ५^y; ३, ५-७;
त्रिमा २, ५०; वृजा ४, १; ४; १५;
भव २, १८; यो १, ४८; रूढ २;
वठ ३१५: १०; शारी ७; शि
७, ४९; ६९; सुवा ५; ६.

पद्^z-पदा वृ ४, ६^b; पङ्क्याम्
सुं २, १, ४; मना २, ३१९ⁱ;
३२९^j; सुवा १९^k; वठ ४, ३८;
५०; शि ७, ५४.

पच्-छस(>) छां ५, २, ७^l.

पाद-चतुष्टय-यम् त्रिवि १, ६;
४, १; -यस्य त्रिवि १, ८.

पादचतुष्टया(य-आ)सक-
-कम् त्रिवि १, ५; ४, ३.

पाद-तल-रोः का ८; नार ८.
पाद-तल-लयोः त्रिमा २,
३५; -ले जाद ३, २; त्रिमा २,
३९; यो १, ५; शां १, ३, १; ३.

पादतल-द्वय-यम् जाद
३, ५.
पादतल-मस्तक-कात् शि
५, २०.
पाद-त्रय-यम् त्रिवि ४, ३;

८, ४^१; -ये त्रिवि ८, ४^१.

पादत्रया(य-आ)सक-कम्
त्रिवि ४, ४.

पाद-द्वय-ये जाद ७, ११.

पाद-धावन-ज्ञान-नम् शि
७, १८.

पाद-नारायण-णः सुद्र २;
-णात् सुद्र १, ५.

पाद-न्यास-सः सूता ३, ११.

पाद-र्-पम् महा ६, ३३;
-पेषु अक्ष ३, ६.

पाद-पर्यन्त-न्तम् वृजा ४, १.

पाद-पायु(यु-उ)पस्थ-स्वक्-
चक्षुः-श्रोत्र-जिह्वा-प्राण-मनो-
बुद्ध्यदि-अ)हृद्धार-चित्त-
ज्ञान-नानि गार ४०७: २१.

पाद-पार्श्व-शं शां १, ३, ८.

पाद-प्रक्षालित-तम् जाद ४,
५६.

पाद-प्रदेश-शः गर्भ ३.

पाद-प्रसारण-णम् शि ७, १३.

पाद-भेदा(द-आ)दि-
पादभेदादि-क-कम् त्रिवि
४, २.

पादभेदादि-कथन-नम्
त्रिवि ४, ३.

पाद-मय-यम् महा ५, १५६.

पाद-युग-नाम् वरा ५, ६१^m.

पाद-वत् प्रसू ३, २, ३३.

पाद-विद्-विदः गौ २, २१.

पाद-विभूति-वैकुण्ठ-नारा-
यण-णः त्रिवि २, १५.

पाद-विभूति-वैकुण्ठ-पुर-रम्
त्रिवि ६, १८.

पाद-विस्ती(र्णं)>र्णां-र्णां शि
२, १३.

पाद-विस्ती(र्णं)>र्णां-र्णां शि
२, १३.

पाद-विस्ती(र्णं)>र्णां-र्णां शि
२, १३.

पाद-विस्ती(र्णं)>र्णां-र्णां शि
२, १३.

पाद-विस्ती(र्णं)>र्णां-र्णां शि
२, १३.

पाद-विस्ती(र्णं)>र्णां-र्णां शि
२, १३.

पाद-विस्ती(र्णं)>र्णां-र्णां शि
२, १३.

पाद-विस्ती(र्णं)>र्णां-र्णां शि
२, १३.

पाद-विस्ती(र्णं)>र्णां-र्णां शि
२, १३.

पाद-विस्ती(र्णं)>र्णां-र्णां शि
२, १३.

a) ष्यन्तात् कर्तरि क्त्वि । b) कस. । उप. < √ ह (तु. पाटी). यत्र ईतापयति = पादयतीति वा पातयतीति वा । c) पा ३, १, १६ । यत्रा. वैपरी यद्र. । d) श्र १०, ९०, ३ । e) श्र १०, ९०, ३; ४ । f) श्र ४, ५८, ३ । g) पा ६, १, ६३ । h) 'पादान्' इति निवा. । i) तैश्चा १०, २४, १ । j) तैश्चा १०, २५, १ । k) श्र १०, ९०, १२ । l) 'पृच्छ्य' इति निवा. । m) णः इति शब्दा. संदि. ।

पाद-शस्(>) गौ १, २४.^१
 पाद-संज्ञा-
 पादसंज्ञित- -तः नाप ८, १३.
 पाद-संधि- -धौ शां १, ७, ५२.
 पाद-स्थान- -नानि शि ७, ४८.
 पाद-हस्त- -स्त्वयोः शां १, ४.
 पादा(द-अ)हु(लि) > स्त्री- -रूपः
 गु १९.
 पादा(द-अ)हुष्ट- -एम् त्रिमा २,
 ८०; १३०; -ष्टे त्रिमा २, १०९;
 १२२; शां १, ७, ४३; जाद ६,
 २२; ७, ८; -ष्टौ त्रिमा २, ४३.
 पादाहुष्ट-धारण- -णात्
 शां १, ७, ४५.
 पादाहुष्ट-निरोधन- -नात्
 जाद ६, २४.
 पादाहुष्टा(ष्ट-अ)न्त-
 -न्तम् जाद ४, १९; शां १, ४.
 पादाहुष्टा(ष्ट-अ)वधि-
 -धिः त्रिमा २, ७४.
 पादा(द-अ)हुष्ट-गुल्फ-जङ्घा-
 जानू(तु-ऊ)रु-पायु-मेढू-नाभि-
 हृदय-कण्ठकूप-तालु-नासा-
 (सा-आ)क्षि-भ्रूमध्य-ललाट-
 मूर्धन- -झोम् शां १, ८^b.
 पादा(द-आ)दिक- -कम् नाद
 २८; भव २, २८.
 पादा(द-आ)दि-जानु-पर्यन्त-
 -न्तम् १योत ८५.
 पादा(द-आ)दि-जान्व(तु-अ)-
 न्त- -न्तम् वपं ३१२ : ८.
 पादा(द-आ)दि-मस्तक-
 -प्रमाण- -णम् नाप ४, १८.
 पादा(द-आ)द्य- -सैः सूता १, ३१.
 पादा(द-अ)धिष्ठित- -तः त्रिमा
 १, ९.

पादा(द-अ)यस > धो-भाग-
 -नो शां १, ७, ५२.
 पादा(द-अ)भाव- -वात् ते ५,
 १९.
 पादा(द-अ)भ्यङ्ग- -ङ्गम् शि ७,
 ३३.
 पादा(द-अ)भ्युज- -प्यान- -नात्
 श २१.
 पादु^१-
 पादु(क) > का^१- -का निवां
 २९७ : ८; -के शि ६, ९६; ७,
 ४६; ९१.
 पादो(द-उ)दर^१- -रः प्र ५, ५.
 पादु^१- -धम् मं २, २, ५; भां
 ३०; आपू २; -धे व ६, २७.
 पादा(ध-अ)र्षा(र्ष्य-आ)-
 चमन-मधुपर्क-पुनराचमन-
 निवेदन-पात्र^१- -त्राणि व ४,
 ९.
 पादा(ध-आ)सन-प्रदान-
 -नेन शि ६, १९७.

पद्-, पद-, पदन- √पद् द.
 १पद्- -णम् कालि ४०१ : ८; गोड
 २०; ५६; योचू ५; १योत १३७;
 १३८; २योत १, ९^१; २, १;
 राधा १, १४; -अस्य ध्या ३५.
 पद्-कर- -रम् सूता १, २६.
 पद्-कल्प-तरु- -रवे त्रिभि ७, ४३.
 पद्-काशी^१- -शीम् व ४२७ : २.
 पद्-कोश-
 पद्कोश-प्रतीकाश- -शम् च
 २१ : १९^b; ब्र ३, १२; मना
 २, १३, २९^b; महा १, १९^b.
 पद्कोश-वत् त्रिमा २, ७.
 पद्-(ग)पा- -मा सौ १, १२.
 पद्-ज^१- -ज योशि १, ६५; १६२;
 ६, ७१; -जः यो ३, १.

पद्म-स्याग- -नो हं ८.
 पद्म-द्वय-
 पद्मद्वया(य-अ)भय-वर-द-
 हस्त- -स्तम् सू ५.
 पद्म-नयन- -नम् सूता १, २७.
 पद्म-नाभ^१- -भाय त्रिभि ७, ४१.
 पद्मनाभो(भ-उ)रस्- -रसि सौ
 १, २.
 पद्म-निधि^१- -धये त्रिभि ७, ४३.
 पद्म-निभे(भ-ई)क्षण- -णम् रार
 २, १००.
 पद्म-पत्र- -त्रम् योचू ८, ८; २योत
 २, ५; महा ५, १७३; गी ५, १०.
 पद्म-पराग^१-
 पद्मपराग-मय- -यः सार
 २५३ : २.
 पद्म-प्रि(य) > या^१- -या सौ १, ३.
 पद्म-बान्धव- -वम् सूता १, २७.
 पद्म-राग^१- -नाम् शि ६, ९९.
 सिसि ३८२ : १८.
 पद्मराग-कुल्य- -ठ्यानि सार
 २४० : ९.
 पद्मराग-जान्मूतदसुषर्ण- -ख-
 वित- -तम् सार २३९ : १.
 पद्मराग-पुष्पराग-चन्द्रकान्त-
 सूर्यकान्त-मणि- -णीनाम् सार
 २५८ : २२.
 पद्मराग-मणि-मणा(ख-आ)-
 क्लित- -सम् सार २६८ : ३^१!
 पद्मराग-मणि-जटिल-नील-
 मणि- -णिना सार २३९ : १२.
 पद्मराग-मणि-लता-प्रथित-
 -ताः सार २८१ : ११.
 पद्मराग-वर्ण- -र्णम् ध्या ९३,
 १४.
 पद्म-वन^१- -नो सार २८७ : ११.

a) °ष्टे नि° इति श्रव्या. संटि. । b) °र्त्विं इति श्रव्या. । c) पाद्रीरज° इति श्रान. । d) नैप्र. > पादा-
 (द-अ)व्- [तु. नभा. खडौव् = काष्ठ-पादाव्; वैतु. पाउ. (१, ८५) < √पद् इति] । e) =सर्प- । f) पा ५, ४, २५ ।
 g) व्यु? = कमल-, मणिविशेष- प्रष्ट. । h) तैश्चा १०, ११, २ । i) =मणिविशेष- । j) पा! नाउ. पदेन समासे तति
 °तभू° इत्येकपद्यात्मकः शोचः द्र. (तु. सस्य. टि. भूमि-रचित- > -तम्) ।

पञ्च-वासि(न>)नी¹- नी सी १, ३.
पञ्च-वृद्धि- -द्धि: ते ६, ८४.

पञ्च-पण्ड- -ण्डानि सार २८७: १०.
पद्म-संभव¹- -व योशि १, ४;
३, २३; ५, १६.

पद्म-सिंहा(ह-आ)सना(न-आ)-
सी(न>)ना- -नाम् शि ६,
११८.

पद्म-सूत्र-नि(भ>)भा- -भा
श्रि १०; १प्र ३१: १७.

पद्म-सूत्र-प्रतीका(श>)शा- -शा
त्रिमा २, ६८.

१पद्म-हस्त¹- -स्ताभ्याम् व
४५२: २१; ४५५: १५

२पद्म-हस्त, स्ता^b- -स्त: व ४४२:
२३; -स्ता सौ १, ३.

पद्मा(घ-आ)क्ष¹- -क्षे ते ६, ८५;
महा ४, ६५.

पद्माक्षी¹- -क्षी सौ १, २.
पद्माक्ष-मुलसी-काष्ठ-रुद्राक्ष-

कृत-माला- -लया रार ४, ६.
पद्मा(घ-आ)रू(ड>)दा- -०डे व
४५२: २१; ४५५: १५.

पद्मा(घ-आ)ल(य>)या¹- -या
गार ४०७: १९.

प(घ>)द्मा-व(त>)ती¹- -०ति
त्रिवि ७, ३५.

१पद्मा(घ-आ)सन¹-
पद्मासना(न-आ)रू(ड>)-
दा- -दा सौ ३७.

पद्मासना(न-आ)सीन- -न:
राया १, ७.

२पद्मा(घ-आ)मन^b- -नम् सूता
१, २६.

पद्मि(न>)नी- -०नि व ४३५:
१३; -नी व ४२६: ७; -भ्य:

महा ५, ७८; सु २, २, ४१.
पद्मो(घ-उ)स्थ- -स्थै: महा ४,
१३३.

२पद्म¹-
पद्मा^d- -द्मा पा ७, ७¹; राधा
१, २१.

पद्मा(घ-आ)दि- -दिभि: सौ
१, २.

३पद्म¹¹⁰- -द्मम् जाद ३, १; ध्या
४३; यो १, ४; १योत २९.

पद्म-क¹- -कम् अना १९; योशि
१, ७०.

पद्मा(घ-आ)द्या(दि-आ)सन-
संस्थित- -त: सौ २, ७.

पद्मा(घ-आ)द्या(दि-आ)सन-
स्थ- -स्थ: रापू ५, १; शां
१, ६.

३पद्मा(घ-आ)सन¹¹¹- -नम् जाद
३, ५; त्रिमा ३, २; त्रिमा २,
३९-४१; ध्या ६९; यो १, ५;
१०; ३२; योचू ४०; ७१; शां
१, ३, ३; ७, ३; वरा ५, १५.

पद्मासन-गत- -त: यो १, ८३;
१योत ३२.

पद्मासन-ममन्वित- -त:
१योत ३५.

पद्मासन-स्थ- -स्थ: १योत
५५.

पद्मासन-स्थित- -त: ध्या ७०;
१योत ५४.

४पद्म¹¹²- -म: गर ५; -द्माप त्रिवि
७, ४२.

पद्म-क¹- -क: गर १७.

पद्मक-वृत- -त: गर १७.

५पद्म¹^b-

पद्मा(घ-आ)न्तक¹-

पद्मान्तक-यमान्तक-विज्ञा-
न्तक-नरकान्तक- -कान् तारा
८४: ३.

पनस्¹- -सम् शि ६, १५; -सानि
शि ६, ३४.

पप्रि¹- -प्रा¹ व ४३७: १५¹¹³.

पयस्¹¹⁴- -य: वृ १, ५, २¹; वृजा ४, ६;
भ २, २०¹; -यसा वृ १, ५, २;
कृ १¹; कथु २, ३; पै ४, ९; भ
२, २२; मना २, ४३¹¹⁵; -यसि
वृ १, ५, २; अवि २०; श्रि २०;
-यसि कौ २, ८५¹¹⁶; सर २, ७५¹¹⁷;
ह १५¹¹⁸.

पायस¹¹⁹- -सम् इ १४: १३¹¹⁹;
-सात् रार ४, ८¹.

पायसा(स-आ)न्न- -न्नम् ते
६, ७८.

पायसा(स-आ)हार- -र:
रार ४, १.

पय:फेन-नि(भ>)भा- -भा:
सार २३७: १४.

पयस्-वि(व>)नी¹²⁰- -नी जाद
४, ८¹; २०; वरा ५, २५; शां १,
४; -भ्या: जाद ४, ३८.

पय:खावा(व-अ)नन्तर- -नम् मं
३, १५.

पयो-धर¹- -रान् २योत १, ३.

पयो-भक्ष- -क्ष: कृ ११¹²¹; कथु २, ३.

पयो-मध्य- -ध्ये घ्या ५; १योत
१, ६; २योत १, ८.

a) मलो. कप. । b) बस. । c) कस. । d) द्यु: ? = लक्ष्मी- वा सखी- वा । e) द्यु: ? = आसन-

विशेष- । f) कप. = आसन- । g) द्यु: ? = नागविशेष- । h) द्यु: ? = मज्जविशेष- । i) = महादेव- । j) द्यु: ?

= फलविशेष- । k) वैपरी यद. । l) विभक्तोऽऽदेशः (पा ७, १, ३९) । m) श्र १, ६९, १ । n) 'स्नपनपयः'

इति निसा. । o) तैश्चा १०, ४२, १ । p) श्र १, ९१, १८ । q) श्र ८, १००, १० । r) 'पायसम्' इति मुगा.

दनि. शोधः द. । s) 'पयसा' इति अष्ट्या. । t) = नागीविशेष- । u) 'तपस्विनी' इति निसा. । v) *क्षा इति

निसा. दनि. शोधः द. ।

पयो-मूल-फला(ल-आ)दि-सुज्-
-भुह् एर ४, १.
पयो(यस्-अ)सु-
पयोम्बु-वल् प्रसू २, २, ३.
पयो(यस्-अ)र्ध- -धंम् वृजा ३, ५.
पर,रा- -रः क १, २, ६; ३, १०; ११;
२, ३, ८; सुं २, १, २; छां २, १०,
६; ४, १-२, ३; वृ ३, ७, १; २; ४,
१, २; ४, २०; ५, ११; ६, ४, १२;
शे ६, ५^७; ६; वृ २, १०^७;
मना २, १२, २९^७; १३, १^७;
ते ३, १^७; नाउ १, ६^७; -रम्
क १, २, १६; १७; ३, २; १०;
११^७; १५; २, ३, ७; प्र १, १;
४, १०; ५, २; ५^७; ७; ६, ७^७;
८; सुं २, २, १; ३, २, ८; ते २,
१, १; छां २, १०, ५; २, १, ३; ३,
४, ३; ४^७; ८, ४; १२, २; ३; वृ
१, ४, ११; १४; २, ३, ६; ३, ७, १;
शे १, १२; ३, ७^७; १९^७; ४, १६;
७, १९; मना २, १३, १९^७; त्रिवि
७, ४३^७; गीउ ६४; गोपू ५;
जाद १, १०^७; ते १, १^७; ११^७;
२, ८^७; ९^७; २४^७; त्रिमा २, १^७;
निर्वा २९८; १५^७; वृउ ५, ३^७;
पं२१^७; १योत १४०; त्रिवि ३३^७;
योचू १३३^७; राउ ४-५, १; रुजा
२, १४^७; स्क ५; शां ३, १^७; ९^७;
म ४८८; २; ३; स ३७८; ८; ११;
३७९; १६^७; वच ३, ५; गी५,

१६; ६, ७^७; ११, २७; -रया प्रवि
२७; भव ३, २; महा ५, १७५;
योशि ५, ५७; ६, ५८^७; गी १,
२८; -रस्मिन् वार्; भव ३, १७;
-रस्मै कौ ३, १९^७; -रस्य जा २;
त्रिमा २, १४७; नाप ३, १; ५१४;
मैत्रि ४, ६; राउ ३, १; वि ७,
५५; सिशि ३८१; ६; प्रसू ३,
२, ११; गी १७, १९; -रस्याम्
छां ६, ८, ६; १५, १; २; -रा कर,
३, १०; ११; सुं १, १, ४; ५; शे ६,
८; २३; अता १७^७; अक्ष १, ४८;
जाद ८ ३; वृ ११^७; ते १, ३५;
त्रिमा २, ३; नाद ६^७; ९; ११;
नाप ८, १^७; योरा १८^७; गोपू ९^७;
हं १९^७; -रा-रा ९^७; वृ ४४०; १२;
४४५; १७; ४५०; १७; ४५४;
१; शा ३६; ३७, -रा; क १, ३,
१०; वृ ६, २, १५; वल् ३; आर्वे
८; ९; सु ४१; -नाणाम् शा ३०;
-राणि भव २, २०; गी ३, ४२;
-रात् प्र ५, ५; सुं ३, २, ८; ते
१, ११^७; त्रिमा २, १५७; नाप ९,
१६; पं १९; वि १; त्रिवि ४०; महा ४,
७१; मना १, १९^७; म ४८; २;
३; रशिसं १७; १८; -रात् क ४४;
कथु ३, ४; कुं १२; त्रिमा २, १०^७;
शा ३१; गी १, १२; -राम् ए १४;
सु ३८; ते १, ४३; त्रिमा १,

७८-८०; ८६; द २१^७; नाप ५,
२१; भव २, ५०; महा ५, ८१;
मैत्रि ६, ३०; योशि ६, १९; -राय
पा १, ३; ४; ३, २; ४, ३; ९,
८-१०; -राया; अक्ष २, ४१; महा
३; १२; -नायाम् प ४२०; १;
यो ३, १८; -रे प्र १, ११^७; ४,
२; ७; ६; सुं २, २, ९; ३, २, ७;
अध्या २४; २५; अत्र ४, १०;
१था ३०; कौ १, १; लु १६; क ४
३०; त्रिमा २, १९^७; २९; १६४;
नाप ९, ६; -रेण ए १, २; वृ १,
३, १२-१६; क १, ३९^७; मना २,
१२, ३९^७; मै ४, ५; मैत्रि ५, २;
वृउ ७, १४; नाप ३, १; अक्ष ५,
८०; जाद १०, ११; -रेणाम् व
४५७; १७; -रेणु मैत्रि ६, ३०;
-रे; ते ४, ५५; ५६; महा ५, ७४;
योत् २, ४०.
पर-काय-प्रवेश-
परकायप्रवेश-कृत्- -कृत् योशि
५, ४८.
परकायप्रवेश-वल्- -वान् कामे
१७.
पर-काय-मनो-योग- -ना; योशि
५, ४८.
पर-कृत्(त-अ)भिचार- -नस्मन्-
-स्मना व ४३३; ९^७.
पर-गुरु- -रुम् द १४^७.

a) ब्रमा. वैपर यद. । b) 'परिः' इति निता. यनि. शोधः द. (तु. आन.) । c) मा ट, ३६ । d) तैआ १०, १०, ३ । e) तु. सस्य. टि. 'नारायण- > -णः' । f) 'रम्' इति अच्चा. । g) परः' इति आन. संटि., Jc. । h) 'वरम्' इति अच्चा. । i) स्थूलसूक्ष्म' इति अच्चा. । j) सकृत् 'परे' इति अच्चा. संटि., 'संविदुः' इति आन. । k) 'पदम्' इति अच्चा. संटि. । l) 'रसम्' इति अच्चा. । m) पा. 'परे' इति शोधः द. । n) 'रम्' इति अच्चा. । o) सकृत् 'पुरम्' इति निता. । p) 'इदम्' इति निता. संटि., अच्चा. । q) सकृत् 'अमृतम्' इति अच्चा. । r) 'परमम्' इति अच्चा. । s) 'तत्परः' इति अच्चा. । t) सकृत् 'परद्वय' इति अच्चा. । u) तु. Jc.; वैतु. शं. परमा' इति । v) 'परे' इति निता. संटि. । w) 'अवरस्मै' इति आन., शांआ ५, १. x) नाप. =तदाव्यवाग्यविशेष- । y) 'वशासुगा' इति आन. । z) =संविदु इत्यस्य विप. । a') =देवीकलाविशेष- । b') श्रु १, ३८, ६ । c') अ' इति निता. यनि. शोधः द. (तु. अच्चा.) । d') तैआ १०, १, १ । e') 'वरात्' इति अच्चा. संटि. । f') =हो-मीजादर- । 'परम्' इति निता. यनि. शोधः द. (तु. अच्चा.) । g') 'परम्' इति अच्चा. यनि. शोधः द. (तु. निता.) । h') 'नाम्' इति युपा. यनि. शोधः द. । i') 'सुरसुम्' इति निता. संटि. ।

पर-गृह- -हे सांस् ४, १२.
 पर-चित्त- -ते शां १, ७, ५२.
 परचित्त-ज्ञान- -नम् शां १, ७,
 ५२; योस् ३, १९.
 पर-च्छेद-मन्त्रा(न्त्र-आ)य-
 (त)त्ता- -०त्त व ४३४:१२.
 पर-जीव- -वयो: अध्या ३२.
 परजीव(व-ए)कता- -ताम् अक्ष
 ५, ७५; जाद १०, १.
 परजीवो(व-उ)पाधि-माया-
 (या-आ)विद्या- -द्ये पै ३, १.
 पर-ज्योतिस्- -तिपे पा १०, ४१.
 परज्योतिः-परमा(मिक)->
 रिमका- -०के व ४३६: १८.
 परज्योतिर-मय- -ये वउ५, ४४.
 परज्योती-रूप- -०प अक्ष ५.
 पर-तारव- -रवम् नाप६, १०; योशि
 २, १८.
 परतारव-स्वरूपक- -कम् रजा
 २, १.
 पर-तन्त्र^१- -न्त्रम् सांका १०.
 परतन्त्र- -न्त्रम् सांस् १,
 १८.
 परतन्त्रा(न्त्र-अ)मिनिष्पत्ति-
 -रया गौ ४, ७४.
 परतन्त्रा(न्त्र-अ)भिसंघृति-
 -रया गौ ४, ७३.
 परतन्त्रा(न्त्र-अ)स्तित्ता- -ता
 गौ ४, २४.
 पर-तर- -र: श २९ योशि १, ५३;
 ग ७; रशिमं १८; स ३७८:
 ९; गुपो ४२०:५; -रम् श २९;
 भवि ४५; नि ४९; नाद १७;
 महा २, ६९; योशि १, ६७; दे
 १८; पा २, २४; रशिमं १७;
 वउ ३, ३१; गौ ७, ७.

परतर-स्व- -स्वात् नि २०.
 परतरौ(र-उ)पाय- -य: कलि२.
 पर-तत्स(>) सुं २, १, २; गौ ४,
 २२; मै ५, २; श २९; वरा ५,
 १९; शा ३१; सी२०; रशिसं१७;
 १८; स३७८:९; १०; गौ ३, ४२.
 पर-ता- -ता महा ५, ४४.
 पर-त्र सूता ६, ११.
 पर-स्व- -स्वात् भवि ४२.
 पर-दार-ग- -ग: इ १७: ७.
 पर-दार-गमन- -नात् मुद्र ४.
 पर-दार-वर्जिन्- -र्जी आश्र १.
 पर-दारो(र-आ)दि- -दि या२, १७.
 पर-दारो(र-उ)पसेवा- -वा भव
 ५, ५.
 पर-देवता- -ताम् गु ६६.
 पर-द्रोपे(प-ई)क्षण- -णे वरा३, २५
 पर-द्रव्य- -च्याणि अक्ष १, ३८;
 -व्येषु शां १, १; भव ५, ३.
 पर-द्वार-
 परद्वारिन्- -री नाप ३, २.
 पर-धर्म- -र्म: गौ ३, ३५; -र्मात्
 गौ ३, ३५; १८, ४७.
 परधर्म-स्व- -स्वे सास् ६, ११.
 पर-तप- -०प नाप ८, ९; जाद १,
 १४; सु १, १, १३; गौ २, ३९; ४,
 २; ५; ३३; ७, २७; ९, ३; १०,
 ४०; ११, ५४; १८, ४१.
 पर-पूर्वा(व-अ)पर- -र: इ १७: ११.
 पर-प्रकाशि(न्>)नी- -नी त्रिता
 २, ३३.
 पर-प्रयुक्त- -नेन महा ५, ३३; वरा
 ४, ९.
 पर-प्रयोग- -भूत-प्रेत-विशाव-
 भैरव-दुर्गा-इतुमद्-गणधरा-
 (र-आ)दि-सकल-किदिवप-

-पम् व ४२८: ४.
 पर-प्रेमा(म-आ)स्पद-
 परप्रेमास्पद-ता- -तया वरा२, ८
 पर-प्रेष्य- -प्या: जावा १२
 पर-ब्रह्मन्- -ह्य योशि६, ६२; मु१, १,
 ३७; ११; नापू५, १५; २७; २९;
 नाउ १, १७; २३; ३, १; रु २२;
 -ह्यग: त्रिवि २, १२; १३; १४;
 १४; ७, २९; नापू१, २; ह्यणि
 १थोत १०८; -ह्यणे पा १०, ४.
 परब्रह्मणी- -०णि व ४३६:
 २०.
 परब्रह्म-चक्र^१- -कम् सौ ३, १.
 परब्रह्म-स्व- -स्वात् नाप८, २०.
 परब्रह्म-पयो-राशि- -शौ शु
 ३, २०.
 परब्रह्म-रूप- -पम् त्रिता ५,
 २१; -पाय नाउ २, ८.
 परब्रह्म-विकासिन्- -सीनि
 त्रिता १, १०.
 परब्रह्म-स्वरूप- -प: ते ३, १;
 -पम् त्रिवि ७, २९; -पस्य भव
 २, ५१; -पाय नाउ २, ३.
 परब्रह्मस्वरूपिन्- -विणम्
 पं २४; -पी नापू २, १६.
 परब्रह्मा(द्वा-आ)नन्दै(न्द-ए)-
 क-रूप- -पम् गोच ६९; १७.
 पर-मन्त्र-
 परमन्त्र-परयन्त्र-परतन्त्र-
 -न्त्रान्^१ दत्ता २
 परमन्त्र-परयन्त्र-परतन्त्र-पर-
 दूत-परकटक-पर^१-च्छेदन-
 कर^१- -०र त्रिता ३, ३२.
 परमन्त्र-परयन्त्र-परतन्त्र-
 शत-सहस्र-कोटि-तेजः-पुञ्ज-
 -धम् सां २१६: १.

a) ०^१ इति मुपा. यनि. शोषः द्र. । b) ०^२त्रोऽभि^१ इति संति. । c) १मोऽवयवः बस. । २योऽवयवः
 दृग. गर्भितः बस. । तस्य ३देनाऽवयवेन मलो. पम. । येन पुनः १माऽवयवस्य कम. । d) =तदावयो-
 पनिपटिरोच- । ०^२ इति मुपा. यनि. शोषः द्र. । e) ०^१ इति अग्या. । f) पुं. । g) ०^१ =तदाव- ।
 h) दृग. > बस. > पम. > उच. ।

पर-मन्त्र-यन्त्र-तन्त्र- -त्राणि व
 ४५६: १२.
 परमन्त्रयन्त्रतन्त्र-भ्रमर(>)-
 री- -रि व ४३२: १२.
 पर-मन्त्रयन्त्र-पर-तन्त्र-पर-
 भूत-प्रकटि(न् >)नी- -नि
 व ४३०: १३.
 परं-पर- -राय पा१, ३; ३, १०; ४, ३.
 परं-परा-
 परंपर्यं- -यां पा ४, ३;
 -यै सांम् १, ६८; ६, ३५; -यैंग
 सांम् १, ७४; ४, २१; ६, ५८.
 परंपर्यं-वत्(>:) सांम्
 १, १२२.
 परंपरा-प्राप्त- -सम् गी ४, २.
 परंपरा-प्रेणि-संचार- -र:
 सार २७२: ८.
 पर-योगिन्- -गिव: रू ५०.
 पर-रक्षा- -क्षा व ४३४: १५.
 पर-र(न्त्र >)न्प्रा^{१०}- -प्रा वरा ५,
 ३०.
 पर-लोक^१- -के रि ६, १६६.
 पारलौकिक- -कम् राउ ५,
 ११.
 परलोक-वियासु^१- -सव: १अव
 १२.
 परलोक-स्थान- -नम् वृ ४, ३,
 ९; -ने वृ ४, ३, ९.
 पर-वक्ष-
 पारवक्ष- -इयात् सांम् ३, ५५.
 पर-वक्षयन्त्रतन्त्रादि-दुष्टवाक्-
 स्तम्भन- -नम् व ४३३: १६.
 पर-वस्तु- -स्तु नाउ २, १.
 पर-नाद-विवर्जित- -ता: सांका ७२
 पर-विद्या-निवारण^१- -०ण तां
 २१४: ११.

पर-शरीरा(र-आ)यित- -श: वोम्
 ३, ३९.
 पर-शिव- -य: कृपु १९.
 परशिव-श्व- -श्वम् रा ४२४:
 १४.
 परशिवद्वय- -य: ह २०°.
 परशिव-शक्ति- -क्ति: कृपु ७.
 पर-श्रद्ध- -श्रद्धम् इ १४: ११.
 पर-संविद्- -वित् ते ४, ४९.
 पर-स्त्री-पुर-पराह-मुख- -स्वा:
 या २, १.
 पर-स्थ्या(स्त्री-आ)लिङ्गना-
 (न-आ)दिक- -कम् मृजा ४,
 ३५.
 परस्पर^१- -रम् गी ३, १७; ४, ३;
 गर्भे २६; नाप ३, ५८; महा ३,
 ५; ५, ९; अक्ष ५, ५३; त्रिता
 ३, ७; आर्षे ७: १; सार २२५:
 ३; २२८: १९; २३३: ११;
 २३४: १२; २५२: १६; २६६:
 ९; २६८: १३; शि ७, ११२;
 वज ४, २६; २७; गी ३, ११;
 १०, ९.
 परस्पर-श्रीहा-संबलित-
 देह- -हाभ्याम् सार २७४: १९.
 परस्पर-गोष्ठी-युक्त- -क्ता:
 सार २६२: २०.
 परस्पर-ज्योत्स्ना-संबलित-
 धीयि- -धय: सार २६६: ८.
 परस्पर-बाल-लीला-मुख-
 युग्म- -ग्म (इग्मम्^१) सार
 २४०: ८.
 परस्पर-मध्यमा-वृष्ट-वर्ति-
 (न् >)नी- -न्यौ त्रिता ३, १२.
 परस्पर-रासकेलि-कला-
 कौतुक- -काय सार २६१: १३.

परस्पर-विरुद्ध-धर्म- -र्मी
 त्रिवि २, १.
 परस्पर-विलक्षण- -णा: सांका
 ३६.
 परस्पर-शृङ्गार-मुख-भोग-
 परस्पर-शृङ्गारसुखभोग-
 यत्- -वज्रयाम् सार २४७:
 २०.
 परस्पर-संचार- -राय सार
 २६६: ४.
 परस्पर-सुख- -खम् सार २४०:
 ४; २६६: २२.
 परस्पर-सुगन्ध-संबलि(त >)-
 ता- -ता सार २७१: १६.
 परस्पर(र-आ)कृत-हेतु(क >)-
 का- -काम् सांका ३१.
 पर-स्वरूप- -पम् भव २, ५८.
 पर-हेतु^१- -से नाप ४, २३.
 पारहंस्य- -स्यम् या २, ३४.
 परहंस-समाह्वय- -य: नाप ६,
 २२.
 परहंसा(स-आख्या >)ह्य-
 -ह्य: नाप ६, २१.
 परहंसा(स-आ)ध्रम-स्थ- -स्थ:
 नाप ४, २५.
 पर-हंसा-रुचि- -चि: भव ४, ११.
 पर(र-आ)काश- -शम् मं १, २,
 १३^१; ३, १, ३^१; ४, १, २; ३.
 परात्
 परात्-प(र >)रा- -रा वो ५.
 परात्परा(रा-आ)ती(त >)-
 ता- -ता वो ५.
 परात्परातीता-रूप- -य:
 कामे ८^१.
 परात्परा-रूप- -य: कामे
 ८^१.

- a) तु. सस्य. टि. भारमरक्षा-। b) =नाडीविशेष-। c) °कधियापरे इति निसा. अश्व्या. च संटि.।
 d) उप. कर्तारि कृत्। e) पा१. °व: अद्वय-> -य: इति शोध: द्र.। f) पावा ८, १, १२। g) °रर° इति आन. संटि.,
 अश्व्या.। h) पा१ उतरेण समासे ? तदभाव: शोध: द्र.। i) परमा° इति अश्व्या. संटि.। j) परमा° इति निसा.।
 k) °तीतरु° इति मुपा. यनि. सु-शोध:। l) °पररु° इति मुपा. यनि सु-शोध:।

परा(रा-अ)वी(त>)ता- ता गुपो
४२१: १.

परावीता-रूप- -प: गुपो
४२०: ६.

परा(र-अ)त्मक- -क: ते ४,६२.

परा(र-अ)त्मन्^१- -स्मन: पाशु २,
२६; -स्मनि अध्या ७; २६; पाशु
२, १८; -स्मसु नाप ३, ७०; -स्मा
शु ३, ३; ससा १, ३^२; ते ४, १;
शु ३, ४; हे ७; -स्मानम् त्रिवा
२, १००.

परात्म-विद्- -वित् पाशु २, २४.

परात्म-सचा- -त्ताम् अन्न २,
१६.

परा(र-अ)धीन- -नै: शि ७, १२१.

परा(र-अ)नन्द, न्दा- -न्द: ते १,
१८; ४, ४८; ६, ५९; -न्दम् शु
३, २३; जाद २, ९; वउ ५, २९;
-न्दा अन्न १, ५३; राधा १,
२४^{१०}; -न्दे कठ २४; ३२; आवो
२६.

परात्म-धन- -न: ते ४, ३.

परात्म-रसा(स-अ)धुच-
-धुच: अन्न ५, ९६.

परात्मिन्- -न्दी अन्न ४, ६७^१

परा(र-अ)ज्ज-काल- -ले मुं ३,
२, ६; कै १, ४; मना २, १२, ३;
भव ३, ३३.

परा(र-अ)पर- -र: मैत्रि ६, २३;
-रम् गौ २, २७; अ १.

परापर-तारव-शापक- -क
अन्न ५.

परापर-म(य>)यी- -यी व
४२७: १०.

परापर-विचित्रित- -त: अन्न ५,

१३; -तम् अन्न ५, ३६.

परापर-संचार- -रा: सार २८४:
१२.

परा(र-अ)पवाद-मुक्त- -क्त: निर्वा
२९७: ९.

परा-पश्यन्ती-मध्यमा-वैखरी-रू-
(प>)पा- -या नापु ५, ३४.

परा-बीज- -जम् काम १३; १४.

परा(र-अ)भिध्यान- -नात् ब्रह्म ३,
२, ५.

परा(र-अ)मृत- -त: ब्रवि १००;
-तम् मुं २, १, १०; वृजा २, ६;

जाद १०, ८; सर ३, ३१; वपू २, २;

-ता: कै १, ४; भव ३, ३३; -ताव

(ःताः^१) मुं ३, २, ६; मना १, १२, ३.

परामृत-रस- -रस: ते ३, ३९.

परा(र-अ)यण- -ण: द्व १४; पाठ,
३; -णम् अ १, ८; १०; छां १,
९, १; वृ ३, ९, १०^१-१७^१; २८,
७; मना २, १३, १९^१; मै ५, ८;

मैत्रि ६, ८; अशि ३, ३; ४, १४;

५, १६; वपू ३, ५; ते १, ९; अ

३, ६; अता १७; पत्र ३, १२; महा

२, ९; त्रिता ५, २१; कुं २०^१;

इ ११: ६; च २१: १८; वट

३१५: ३; ३१६: ६; वपू २,
३; -णा: गौ ३७.

परा-रूप, पा- -प: यो ७; गुपो
४२०: १०; -०वे अन्न १५.

परारूपि(व>)णी- -णीम् कामे
५.

परा(र-अ)र्थ- -र्थ: सांका ५६; -र्थम्
१ संन्या २, ९३; सांस् ३, ५८;

योस् ४, २३; -र्थेषु महा २, ६२;

वरा ४, २७.

परार्था(र्थ-अ)न्य-स्वा(स्व-अ)-
र्थ-संयम- -मात् योस् ३,
३६^१।

परा(र-अ)र्थ- -र्थ: २ शिसं १३९^१;
-र्थं क १, ३, १^१.

परार्थ-पर्यन्त- -न्तम् सी १४.
पारार्था(र्थ-अ)न्त- -न्ते गोपू
२५.

परार्थ- -ध्वं: छां १, १, ३.

परा(र-अ)लोक- -क: अन्न १, ४४.

परा(र-अ)वर, रा- -र: ब्रवि ९९;

-राम् मुं १, १, २; -रे मुं २, २, ८;

ध्या १५; महा ४, ८२; योशि

५, ४५; अन्न ४, ३१; सर ३,
३२.

परावर-विद्- -विद: कुं २२.

परावर-संयोग- -या: निर्वा
२९८: ६.

परावर-सुख- -स्त: ते ३, ३०.

परावर(र-ए)क्य-रसा(स-अ)-
स्वादन- -नम् निर्वा २९८: ८.

परा-वाष्^१- -वाचा म ४८: २.

*परे^१-

*परे-मु^१-

परेघुस्(>:) वृजा ३, ५.

परे(र-द)च्छा- -च्छया नाप ५, ४^१;

शि ६, १८४.

परेच्छा-चरण- -णम् निर्वा
२९७: ८^१.

परे(र-ई)श- -शाय १ संन्या २, ३२;

वरा २, ३५.

परेश-स्व- -स्वम् योशि ३, २५.

परो(र-उ)पदेश- -शे मव १, ५८.

परो(र-उ)पद्व-कारिन्- -रिण: इ
१७: १२.

a) 'परमात्मा' इति ध्यान., अख्या. । b) =गोपीविशेष- । c) =मिद् इति निष्ठा. मुभा. यनि. मु-शोध: ।

d) तैश्वा १०, १०, ३ । e) पा. १ (तु. तैश्वा १०, १०, ३) यनि. शोध: द. (तु. J.C.) । f) तैश्वा १०, ११, १ । g) 'वपू

परम्' इति निष्ठा. मुभा. यनि. मु-शोध: । h) पा. १ भाव्यमनु यनि. च तत: पूर्व *परार्थत्वात् इति पदान्तरं च द. (तु. मुशोमू; वैतु. अन्वयशोमू. पारार्थात् स्वा^१ इति विलुप्तमध्या पददधीति) । i) मा १७, २ । j) =प्ये इति ध्यान. ।

k) =शारिरीशोप- । l) तु. वैप १, २५-d, e, f. । m) *चारणम् इति अख्या. संघि. ।

परो(र-उ)पशाम-शालि(न्)नी-
नी १संया २, २४:

परम,मा- -मः छां १,१,३; वृध,३,
२०; ३२; ३३; कै १८९^०; मना
२,१३,२९^०; मैत्रि ६, २८; मैत्रे
३,२; १०; वृपूर, ८९^०; तेर, १^०;
३,१,५,५८; ऋवि६; ९९; त्रिवि
२, १६; नाप ४, १४; महा १,
१९^०; १४^०; योशि ३, २; अक्ष
१,५४^०; त्रिता २, १६; म २, ४;
१५; त्रि १६; गोपू २; ४९^०; च
२१ १: ६९^०; १प्र ३१: १०; या
१५; सता १, ६; नापू ३, ६९^०; पा
१, १, ७; २, १; ७, ७; हे ७; शालि
४०२: १६; ४०३: ७९^०; तारा
८४: ११; भव ४, १; गी६, ३२;
-मम् क १, ३, ९; १७; २, २, १४;
मुं ३, १, ३; ६; २, १, ९; वृध १,
२-७; ५, ११, १^०; खे १, ७; ६, ७^०;
२१; २२; मे १, १; ४, ४-७; मैत्रि
१, २; ६, २६; ३०; ३४; मैत्रे १,
१; मना १, २९^०; २, ७९^०; ९^०; ऋ
२९^०; ३, ६; ऋवि ४; ७; ९; कै १,
१०; वना १; अशि ६, १७; वृजा
८, ६^०; आर ५^०; वृपू १, ३;
१०^०; १५; ५, २०^०; २१^०; वृज
४, १-३; ७, २; ७; १०; सुवा६^०;
नि१०; ४८; ४९^०; ते१, ५; ९; २,
३५; ६; ६२; नाद४७; ४९^०; प्या
२; २५; ८९; ऋवि ४५^०; ५९;
१योत६; १७; २योत१, ७; नाप४,
३८^०; ९^०; ९, ६; १६; २०; त्रिवि
१, ११; ४, ७; ७, १७^०; त्रिता २,
२८; योचू १०; ६२; मं ५, १,
५; स्क १४९^०; १५९^०; रापू ४,

६७; ५, १०; राउ ५, २९^०; शां
१, ७, ३७; पैध, २१; २३^०; महा
१, १; १०^०; ५, ४१; ८८; योशि
१, ३; १५; ३, १६; ६, २१९^०;
अव्य ३; अक्ष ३, १; ४, ४५; ५,
४२; ५४; ६३; ११९; पायु २,
३०^०; पत्र ३, १२; त्रिता १,
४२; ४६; ४८; ४९; ४, १८९^०;
२०^०; ५, १; ४; २०; कक २७;
रूह ५२; यो१, ७३; ३, ५; ता ३,
९^०; जाद २, ६; पं १४; २०; सं
शां^०; गोपू ३; २१; २७^०; ३१;
वरा ४, ३८; ४१^०; ५, ७६^०;
शा४; ह१५^०; सर २, ७९^०; सु२,
२, ७७^०; योरा २१^०; आर्य ७;
२०; इ १९: २१; च २०:
१०^०; क ६४: १०^०; नापू
१, १६; पा१, १०; ७, ७; सु२९४:
१२^०; वदू ३१८: १; शि १,
२१; २८; ४, ६७; ५, २; २९; ६,
८८; २२३; ७, ४२; ८१; सि ४,
११; वउ ५, ३०; ६, ३२; भव
२, ६; १२; ३, ५^०; गी ८, ३; ८;
२१; १०, १; १२; ११, १; ९; १८;
१५, ६; १८, ६४; ६८; -मया
महा ४, १२; १२८; गोपू ३३;
-मस्य महा २, ४; वरा ३, ५;
-मा वृ ४, ३, ३२^०; वृपू १, २;
नाद ७; महा ५, ८९; योशि १,
११७; ६, ४७; अक्ष १, २५;
अध्या २९; त्रिता १, ९; रूह
३०; म २, ८; इ ११: १६^०;
राधा २, ११; ताता ८४: ८; ११;
वपू १, ४; योसू २, ५५; -९^०मात्र
मना २, १; व ४६१: १४; -माम्

क २, ३, १०; वृ ६, ४, २८; मैत्रि
६, ३०; मना १, ९९^०; नाप ४,
१; योशि ६, ३४; ४०; अव्य २;
कुं २२; त्रिता १, ७९; २, ६९;
१अव ५; यु ६६^०; मव १, ३७;
गी ८, १३; १५; २१; १८, ४९;
-माय मना २, १६^०; -मे क १,
३, १; तै २, १, १; ३, ६, १; खे४,
८९^०; मैत्रि ६, ३५; मना १,
१^०; ९^०; वृपू ४, १; ५; ९; वृजा
६, १२^०; राउ ५, २९^०; सु२
२; त्रिता ४, ३०; ५, २१; कक
११; ह १६^०; व २३^०; २प्र
३३: १५^०; नाउ १, १४^०; यु
५३^०; चक ३९^०; -मौ रूह ४३.
परम-ऋषि- -विभ्यः प्र ६, ८^०; मुं
३, २, ११^०.

१परम-कल्याण^०-
परमकल्याण-विलास-विनोप-
-पम् त्रिवि ७, ९; सि ५, ३.
२परम-कल्याण^०- -णम् त्रिवि ६,
२२; सि २, ५; ४, ५.
परमकल्याणी- -०गि व ४३२:
१६; ४३६: १८.
परम-का(न्त>)न्वा- -न्तया महा
५, १२२.
परम-कारणिक- -कः १अव १; भ
१, २.
परम-कैवल्य- -व्यः सि १, ३; -व्यम्
त्रिवि ७, २०; ८, ४.
परमकैवल्य-स्वरूपा(प-अ)-
नन्त-गण- -णाः सि ५, २१.
परमकैवल्य(ल्य-आ)नन्द-रूपा-
(प-अ)नन्त-शिखर- -राः सि
४, १.

- a) वैपश् यद. । b) तैश्चा १०, ११, २ । c) ०मसिचः इति अख्या. । d) ०मस्फुटं इति अख्या. ।
e) 'परः' इति आन. । f) तैश्चा १०, १, २ । g) तैश्चा १०, ६३, १^० । h) पाय २, २, ११ । i) ऋ १, २२, २०; २१ ।
j) 'परम्' इति निसा. । k) ०मपदम् इति अख्या. । l) ऋ १, २२, २० । m) ऋ १, २२, २१ । n) तैश्चा १०,
११, १ । o) ऋ ८, १००, १० । p) पा. १०मः इत्येवं बोधः द्र. । q) वी ७, ६५, १ । r) तैश्चा १०, १, १ । s) तैश्चा १०,
१६ । t) ऋ १, १६४, २९ । u) तैश्चा १०, १, १ । v) ऋ १, १६४, ४१ । w) तैश्चा ८, १, १ । x) कस. । y) वस. ।

परम-कौतुक- -कम् त्रिवि ६, १५;
१७; २०; २३; ७, १; सि ५, १;
-कान् त्रिवि ७, १^a.

परमकौतुका(क-अ)परिच्छिन्ना-
(न-आ)नन्द-सागरा(र-आ)-
कार- -रम् सि ६, ३५.

परम-गुरु(र-उ)पदेश- -शेन अता
१३.

परम-धिद्-विलास-समग्ध्या-
(ष्टि-आ)कार- -रम् त्रिवि ७,
१७; सि ६, १.

परम-ज्ञान-देशिक- -कःशि १, १६.

परम-तरव- -रवम् मं ५, १, ६.

परमतरव-कैलास-रहस्य-
-स्यम् सि १, १.

परमतरव-ज्ञ- -ज्ञः त्रिवि १, २;
३, १.

परमतरव-परम-विभवा-
(व-अ)सुसंधान- -नम् त्रिवि
२, १३.

परमतरव-रहस्य- -रवम् गैत्रे २,
१; त्रिवि १, १; ३; ४; ८, १३;
१४; २०; जाबा २

परमतरवरहस्य-वक्त्र- -क्ता
त्रिवि १, १.

परमतरवरहस्या(स्य-आ)-
ख्या(स्य-आ)यवैण-महानारा-
यणो(ण-उ)पनिपद्- -पदम्
त्रिवि ८, १५; -पदि त्रिवि १, २.

परमतरवरहस्यो(स्य-उ)पनि-
पद्-कम- -मः त्रिवि १, ५.

परम-सा- -ताम् घृ १, ४, ११; ५,
१३, १^a; मैत्रि ६, ३८.

परम-तेजः-पारा(र-अ)वार- -रे
त्रिवि ८, ५^a.

परमतेजःपारावार-तरङ्ग- -ङ्गाः
त्रिवि ८, ५.

परम-तेजो-मण्डल-विशेष-

-यम् त्रिवि ७, १०; सि ५, ५.

परम-तेजो-महा-नदी-प्रवाह-
-हः त्रिवि ८, ५^b.

परम-धामन्- -म पदं २^c.

परम-निर्विशेष- -पम् त्रिता ५, १.

परम-पद्- -दम् त्रिवि १, ११^d.

परम-परिपक्व-चित्त- -त्ताःसि १, ४.

परम-पवित्र- -अम् त्रिवि ६, २२.

परम-पावन- -ने अत्र ४, २०; वरा
४, २९.

परम-पुरुष- -यः राज ४, ४१; मुद्र
४; ता १, २; ३, ८; अद्वैभा ३;

-यम् त्रिता ५, १; -पाय ना२, ८.

परम-प्रकृति- -कृत्यः^e अद्वैभा ३.

परम-प्रेम-गोचर- -रम् गैत्रे १, ४, ८

परम-बन्धन- -नम् महा ४, १०७.

परम-भक्त- -क्ताः स्व ६१; १९.

परम-मङ्गल- -लैः त्रिवि ६, २३; ७,
५०; सि ५, ८; ६, ३५.

परममङ्गला(ल-आ)कार- -रम्
त्रिवि ७, २८.

परममङ्गला(ल-अ)चल-श्रेणि-
-णिपु त्रिवि ६, २१^f.

परममङ्गला(ल-अ)नन्त-
दिव्य-तेजस्- -जोभिः त्रिवि
७, ५०.

परममङ्गला(ल-आ)सन- -नम्
त्रिवि ५, १४; सि १, १४.

परम-मन्त्र- -न्त्रैः त्रिवि ७, ४९^g.

परम-मूर्ति-

परममूर्ति-परमतरव-विलास-
विशेष-मण्डल- -लम् त्रिवि
७, २०.

परममूर्ति-परमतेजः-पुञ्ज-
पिण्ड-विशेष- -पम् त्रिवि ७,
२०.

परम-मोक्ष- -क्षः त्रिवि ८, ३; ४.

परम-योगिन्- -गिनः त्रिवि ८, ६;
-गिभिः त्रिवि ७, १७; २०; -गी
मं २, ५, ४.

परमयोगिनी- -नि व ४३२ :
१५.

परम-रस-

परमरस-म(य>)यी- -यीम्
अत्र २, १६.

परम-रहस्य- -स्यम् त्रिवि ८, १४;
२१.

परमरहस्य-कैवल्य- -ल्यम्
त्रिवि ७, २९; पे १, १.

परमरहस्य-भूल- -तम् मुद्र २.

परमरहस्य-शिव-तरव-ज्ञान-
-नम् द १^h; -नेन द १.

परमरहस्य-शिव-तरव-
विद्या- -द्याम् द २१.

परम(म-अ)र्षि- -र्षयः त्रिवि ६, १;
सु १, १, १७; -र्षिणा सांका ६९.

परम-लिङ्ग- -ङ्गाय मना २, १६ⁱ.

परम-वस्तु- -स्तुनि महा २, ७४.

परम-विहार-संस्थान-विशेष-
-पम् त्रिवि ७, ८; सि ५, ४.

परम-वैकुण्ठ- -ण्ठः त्रिवि ८, ३; ४.

परमवैकुण्ठ-महानारायण-
यन्त्र- -न्त्रम् त्रिवि ७, ४९.

परम-व्योमन्-
परमव्योमि
परमव्योमि-क(=ग)^l- -कम्
वपु १, ६.

परम-नाकि- -क्तिभिः अशि ४,
२०; वट्ट ३१६; १३.

परम-दानित- -न्तिम् मं ३, १, ४.

परम-शिव- -वः स ३७९; ६.

परमशिव-भक्त- -क्तानाम्
सिसि ३८०; २.

n) °कान् इति ऋष्या. संटि. । b) °हृष° इति निरा. । c) °मं धा° इति निरा. । d) °मं ष° इति निरा. । e) जसि छान्दसो गुणविच्छयः [पावा ७, १, १०९ (वैश्र. संशो. °तिः इति)]. f) °लश्रोणीपु इति निरा. । g) 'परमन्त्रैः' इति निरा. । h) मैत्र्या आ १०, १६ । i) काय. । पूष. तात. अन्तुर्. । उप. नैष. < /g> म् [गु. १११.]; वैश्र. नादी. एष. ठम् प्र. (पा ५, १, १०९) इति ? ।

परमशिव-विद्या- -द्या त्रिता १,
७२.
परम-शोभन- -नम्बुव ४६६: २१.
परम-संन्यास-स्वरूप- -प: राधा
४, १.
परम-सुख-द- -दम् शु १, १८.
परम-सुन्दर(>)री- --रि व
४३६: १६.
परम-सूदम-मूल-कारण- -णम्
त्रिवि ३, ७.
परम-स्थिति- -ति: पदं ३!०.
परम-हंस^१- -स: जाद^१; हंस: १०;
नि ५५; शु १, १८; २, ५^{१०}; पदं
२; ३; नाप ५, १^१; वा १२; निर्वा
२९७: १; मं ५, १, १; १संन्या २,
१३; तुआ७; पप४१७: ४; ४१२:
११; पाशु १, २९; या २, १; वरा
२, ३७; शा ११^१; म ४२: १५;
गोच ६६: १८; -सस्य नाप ३,
२८; ५, १^१; ७^१; १संन्या २, ५९:
-सा: जाद; वृजा७, ३; आध४^१;
या २, १; मि ७; १६; -सानाम्
पदं १.
परमहंस-सुरीयावीणा(त-अ)-
बधूत^१- -तै: पप ४२०: ४.
परमहंस-परिवाज^१- -वाट् पप
४२०: १८.
परमहंस-परिवाजक^१- -क: पप
४१२: १९; ४२०: १०; -कानाम्
आरु ४.
परमहंसपरिवाजक-लक्षण-
-णम् पप ४१७: २.
परमहंस-पुरुष- -पस्य अद्वै २६.
परमहंस-पूग- -गै: अद्वै २३.
परमहंस-प्रीत्या(ति-अ)र्थ- -र्थं
शु १, १८.
परमहंस-मार्ग- -गै: पदं १.

परमहंसा(स-आ)चरण- -णेन
मि १५.
परमहंसा(त-आ)दि-त्रय-
-याणाम् नाप ५, १.
परमहंसा(स-अ)धिकारिन्- -री
नाप ३, १.
परमहंसा(स-आ)धन^१- -मेण
नाप १.
परमा(म-आ)काश- -शम् अता
७; मं ४, १, २; ३; -शो महा ५,
१५९; योशि ६, ४०.
परमाकाश-रूप- -प: योशि १,
५७.
परमाकाश-विग्रह- -ह: ते ३,
१२.
परमाकाशा(श-अ)खण्ड-
मण्डल- -ल: मं १, ४, ४.
परमा(म-अ)क्षर- -नम् एद; रुद्र ३०.
परमाक्षर-त्रिगैव- -यम् त्रिवि ४६.
परमाक्षर-विद्- -वित् त्रिवि ४२.
परमा(म-अ)णु^१- -णव: शि २,
२०; ३, १४; ५, २४.
परमाणु-परम-महत्वा-
(स्व-अ)न्त- -न्त: योशु १, ४०.
परमाणु-वत् त्रिवि ६, ५.
परमा(म-आ)मन्- -स्मन: मं ३,
२, २; त्रिमा २, १४७; योशि
४, ५; त्रिता २, ११^१; गोपू १७;
पाशु २, २६; अद्वै ४; शि ६,
१३३; वउ ४, १८; ५, ३; -मनि
ब्र ३, १४; अ १; ३; १यौत
११; नाप ३, १८; मं ३, १, ४;
पै ३, १^१; ४, ९; योशि १, १; यो
३, २४; पाशु २, १५; जाद ६, १७;
सर ३, ३१; भव २, ५४; -मने
वृजा ४, २९; -स्मा मैयि ६, ९;
१७; मैयि ३, १२; वउ २, ३;

१३; काला १६; हं ९; मना २,
१३, २९^१; २, ६६^१; ससा १,
३७; नि ५; १२; २०; शु २,
५^१; ते ४, ४१; ४५; ६२; ५,
५८; ६, ६७; नाद ४८; त्रिवि
९९; त्रिवि १, ११; १आ १^१;
२आ १; ३^१; महा १, १९^१; ४, ५६;
५, ८९; योशि १, १३४; अक्ष
१, ४४; २, ३४; ५, ५६; पाशु
१, २५; २९; २, १; रा ५, ४;
राउ ४, ४६; वा २३९^१; मं १,
४, ३; ३, १, ६; त्रिता १, ३१; ३७;
२, ११; ५, १; रुद्र १३; जाद
१०, ८; ता १, २; २, ४; ३, १;
३; ८; मवा ६; प्रा १, ६; ह ६;
जाना २५; मु १, १, ४; अद्वै १३;
च २१: ५; म ४२: १४; नाप
५, ७; नाउ १, २०^१; सूता ४,
१०^१; पा ३, ८; ४, ३; १०, ३;
छपु २५; लि ३११: ७; कालि
४०३: ६९^१; वपू २, ३; भव
२, ४१; गौ ६, ७^१; १३, २२; ३१;
१५, १७; -स्मानम् नाप ५, ३८;
त्रिमा २, १२९; १४४; त्रिवि ३,
४; रापू ५, ५; रा २, ६; अव्य
६; रुद्र १२^१; ह १२; वउ ५, ११.
परामारिक- -क: पा ३, ७;
-कम् पा १, ३.
परामारिकी- -की
१संन्या २, ४६^१.
परमात्म-नगर- -ने मं २, ५, २.
परमात्म-जीवामन्- -स्मनो:
त्रिता १, ४५.
परमात्म-तत्त्व- -त्वाव महा ५,
५२.
परमात्म-दृष्टि- -दृष्ट्या मं ३, १, ३.
परमात्म-व्यान- -नैत मं २, ३, ६

a) पस. (द. नादी.) । b) ०म स्वि० इति निरा. यनि. शोध: द. । c) सकृत् 'हंसः' इति श्रव्या. ।

d) ०मना इति श्रव्या. । e) तैशा १०, ११, २ । f) तैशाशा १०, ६६ । g) ०म इति मुपा. यनि. शोध: द. ।

h) 'परामसु' इति SCHR. पाठे. [वैद. बे. (NIA २, २३१)] । i) ०मार्यि० इति श्रव्या. ।

परमात्म-पद- -दम् १योत् ९;
योशि १,६; -दे योशि १,१५६.

परमात्मपद-भ्रासि- -सौ

अज ४,६; वरा ३, २९.

परमात्म-भय- -यः महादे, ३८.

परमात्ममयी- -यी महा ६,
६२.

परमात्म-रूप- -पम् कै २, ४;

५; योशि ६, २०.

परमात्म-स्तर- -रे हे ३.

परमात्म-स्वरूप- -यः पाशु १,
१३; -पम् मना २, ३३१; -येण
ध्या ९३, १५.

परमात्मा(त्म-श्चा)त्मन्- -रमनोः
पहं २.

परमात्मा(त्म-श्चा)विर्भाव- -वः
त्रिवि ५, ८.

परमा(म-श्चा)त्म-पुण्य- -ष्यम् पा
९, ७.

परमा(म-श्चा)द्वैत- -त्तम् कठ २६.

परमा(म-श्चा)धिष्ठान-मण्डल- -लम्
त्रिवि ७, २०.

परमा(म-श्चा)धिष्ठान-विशेषा-
(य-श्चा)कार(र>)रा- -राम्
त्रिवि ६, १०.

परमा(म-श्चा)नन्द- -न्द गोपू
४३; ४५; -न्दः ते ३, ११; कृ
३; -न्दम् वृजा ८, ६; शृपू ५,
२०; ते ६, ४२; नाद २०; नाप
५, ३९; त्रिवि ५, १२; १४; ६,
१; २०; २१; ७, १५; ८, १६;
रुह ४७; -न्दस्य वृत्त ७, ७;
-न्दे योशि ६, १८.

परमानन्द-घन- -नः आबो ८.

परमानन्द-चिद्-घन- -नः ते
४, ५५.

परमानन्द-वरहिणी- -ययाः
त्रिवि ६, ३३.

परमानन्द-दायक- -कः ते १,
३६; -कम् मु २, २, ५४.

परमानन्द-निधि^१- -धये त्रिवि
७, ४३.

परमानन्द-निर्भर- -रः त्रिता
३, २६.

परमानन्द-पूर्ण- -र्णः ते ४, ३;
१भव ११.

परमानन्द-प्रवाह- -हैः त्रिवि ६,
२३; सि ६, ३५.

परमानन्द-मय- -याः दे १२;
-यान् त्रिवि ७, १५.

परमानन्दमया(य-श्च)न-
न्त-विमाना(न-श्चा)वल-
-लिभिः सि ३, ५.

परमानन्द-रूप-
परमानन्दरूपिन्- -पिणे
गोपू ३५.

परमानन्द-लक्षण- -गम् त्रिवि
४, ४.

परमानन्दलक्षण-पर-
मसन्- -क्ष त्रिवि ८, १८.

परमानन्दलक्षणा(ण-श्च)-
परिच्छिन्ना(न-श्च)नन्व-
ज्योतिस्- -तिः सि^२ ६, ३.

परमानन्दलक्षणा(ण-श्च)-
परिच्छिन्ना(न-श्च)नन्व-पर-
ज्योतिस्- -तिः त्रिवि ७, १८^d.

परमानन्द-लहरी-वन- -शो-
भित- -त्तम् सि ५, १५; -त्तान्
त्रिवि ७, १.

परमानन्द-विमान- -नम् त्रिवि
६, १९.

परमानन्द-व्यूह- -हैः त्रिवि ६,
२३; सि ५, १४; ६, १६.

परमानन्द-संदेह^३- -हः अक्षि
४६.

परमानन्द-संभव- -वः सौ २, ७.

परमानन्द-सौदामिनी-चपो-
(य-उ)ज्वल- -लम् सि ५, ४.

परमानन्द-सौदामिनी-निचपो-
(य-उ)ज्वल- -लम् त्रिवि
७, ७.

परमानन्द-स्वरूप(प>)पा- -पा
शां १, ११.

परमानन्दा(न्द-श्च)चलो-
(ल-उ)परि त्रिवि ६, २४.

परमानन्दा(न्द-श्च)मृत-
परमानन्दामृत-प्रक्षयिष्ठा-
परमानन्दामृतप्रक्ष-
यिष्ठा-भय-
परमानन्दामृतप्रक्ष-
यिष्ठाभया(य-श्च)नन्त-समुद्र-
-द्रम् सि ५, ५.

परमानन्दा(मृत-भय-
-यैः
सि ४, २.

परमानन्दिन्- -न्दी निर्वा
२९७; १०.

परमानन्दै(न्द-ए)क-भूम-
रूप- -यः आबो ८.

परमा(म-श्च)न्तर-आत्मन्- -रमा
पा ७, ८.

परमा(म-श्चा)पद्- -पदः अक्षि २३.

परमा(म-श्च)मृत- -त्तम् कठ २७.

परमा(म-श्चा)मृत-ना(मन्>)ज्ञी- -ज्ञी
महा ४, १६; ६, २.

परमा(म-श्चा)युः-प्रमाण- -णम्
त्रिवि ३, ४.

परमा(म-श्चा)र्थ^१- -र्थः गौ ३, १८;
-र्थम् त्रिवि ३२; -र्थान् मु २,
२, १; भव १, ४८; -र्थेन गौ ४,
७३; ७४; महा ५, ११२; १६५;

-र्थौ सि ७, १०५.

परामार्थिक- -कः पै २, ३०;
मु २, २, ५६; -कम् अज २, १७;
२२; ५, ४४; पाशु २, ३३.

a) १) स्मं स्व० इति निसा. यनि. शोधः द्र. (तु. तैत्थ्या १०, ३३) । b) १) न्दम् इति मुपा. यनि. शोधः द्र. ।

c) १) न्ददीप० इति निसा. संदि. । d) १) रं ज्यो० इति मुपा. यनि. शोधः द्र. । e) १) उप. =संदोह- ।

पारमार्थिक-कर्तृत्व-
 भ्रम-भ्रम १, १६.
 पारमार्थिक-रूप-
 पारमार्थिकरूपि-
 (रु>)णी-णी सु १, १, १८.
 पारमार्थिक-विज्ञान-
 नम् नाप ६, ९.
 परमार्थ-तत्त्व-रत्वम् योशि १,
 ९०.
 परमार्थ-तत्त्व(>) गौ १, १७;
 ४, ७३; त्रिवि २, १३, १७; ३,
 २; ५, ४; ६, १; महा ५, १०८;
 सर २, १^०; जाद १०, १२.
 परमार्थ-ता-ता गौ २, ३२;
 १आ ३१; त्रिवि १०; १अव ८;
 त्रिता ५, १०; अवि १०.
 परमार्थ-दर्शित्व-र्शिनः वसू
 १७.
 परमार्थ-दृष्टि-दृष्टिः वरा २, ६९.
 परमार्थ-मति-मतिः नाप ६, ३६.
 परमार्थ(र्षेण)क-विज्ञान-नम्
 वरा २, २९.
 परमा(म-आ)लय-यम् मैत्रि ६,
 २७.
 परमा(म-अ)वधि-धिः अध्या ४१.
 परमा(म-आ)श्रम-सम् नाप ६,
 २८.
 परमे-द्वि^१b-द्विनः वृ २, ६, ३;
 ४, ६, ३; द्विनम् कै १, १; नाप
 २; ८, १; तारा ८४ : ७; द्विने
 मना २, ६७^०; धी वृ २, ६, ३;
 ४, ६, ३; मना २, ७९^०; नाप
 २; ८, १; त्रिवि १, १; महा ३,

५१; अव्य १; बा २५.
 परमे(म-ई)स-सः योच् ८३;
 -शास्य योशि २, १०; -शास्य शि
 ६, २७.
 परमे(म-ई)शा(न>)नी-नी वं
 ३१३ : २.
 परमे(म-ई)शर^१-शर राउ ३, २;
 योशि ६, १; गोपू ४३; गौ ११,
 ३; -रः मैत्रि ७, ७; स्क ५; वृपू
 २, १३; वृउ ४, ४; ८, २-५; त्रिवि
 १०१; श १; १४; त्रिवि १, ११;
 २, १५; रापू ४, ३१; महा ४,
 ११८; ६, ८; पाशु २, १२; त्रिता
 १, २५; म १, २; या २, १;
 गोपू २५; स ३७९ : १२;
 नम् कै १, ७; मैत्रे १, ४, ८; ते
 ४, १; राउ ४, १; योशि १, ७२^०;
 ७८^०; ५, ५७; बि १; ३; गौ
 १३, २७; -राय व ४३४ : १४;
 -रे योशि १, ७४^०.
 परमेश्वरी-श्री ध्या ६६;
 योच् ३८; त्रिता १, ९; नापू २,
 १०; -र्या रापू ४, ८.
 परामेश(>)री-श्री अक्ष
 १, ५३; १कौल ८ : २; -रीम्
 त्रिवि २६^०.
 परमेश्वर-रूप-वेण ध्या ९३,
 १३^०.
 परमेश्वर-सत्ता-सत्ता निर्वा
 २९७ : १३.
 परमेश्वर-स्तुति-तिः आपू ६.
 परमेश्वरा(र-आख्या)>ख्य-
 ख्यम् पै ४, ११.

परमे(म-इ)ष्वा(यु-आ)स-सः गौ
 १, १७.
 परमै(म-ए)का(क-अ)न्त-
 परमैकान्त्य-
 परमैकान्त्य-सिद्धि-द-
 -दाः भव ५, २२.
 परमैकान्त्य-हेतु-तवः
 भव ५, २१.
 परमो(म-उ)दार, रा-रत्व महा ६,
 ५२; -रा ते १, २९; १संन्या २, ४४.
 परमो(म-उ)वक्षस-प्र(व>)दा-
 -दा अक्ष ४, ४८; सु २, २, २९.
 परशु^१-शुः कौ २, ११७^०; -शुम्
 छां ६, १६, १^०; २.
 परशु-राम^१-
 परशुरामा(म-अ)वतार-राय
 नापू ५, १०.
 परशु-हस्त^१-स्तेन व ४५३ : २२.
 परश्वन्^१-शा कौ १, २.
 परसू^१-रः छां १, ६, ५; ६, ७, ४^०; ३,
 १३, ७^०; मैत्रि ४, ४; मना २,
 १३, १^०; -रासि मना २, ७८^०.
 परस-ताव सुं २, २, ६; छां २, २४,
 ६; १०; १५; वृ १, २, ४; ७; श्रे ३,
 ८^०; ६, ७; कै १, ७; मना १,
 १७^०; कौ २, २^०; ३, ५^०; वृउ ९,
 ११; त्रिवि ४, ५; ७^०; सुवा २;
 ११; १३-१५; ११-१२; २, ३, ३;
 १२१^०; २शिशं १५७^०; गौ ८, ९.
 परः-शत-पथि-वाणी-ज्ञ-ज्ञः
 पाटा १५१^०.
 परो(रस-अ)क्ष^१-क्षम् पै ३, १;
 सूता १, ३५; ६, १३; शि ७, २२;

a) 'परमेश्वरी' इति श्रद्धा. । b) =ज्ज्ञान- । वैप १ यद. । c) तैश्चात्रा १०, ६७। d) तैश्चा १०, ६३, १।

e) °द्विनम् इति श्रद्धा. संति. । f) °द्विनम् इति आन. । g) °द्विनः इति आन. । h) 'पावनीं पराम्'
 इति श्रद्धा. । i) °रस्वरूपं इति निता. । j) वैप १ यद. । k) माशत्रा १४, ९, ४, २६। l) =श्रवतारविशेष- ।
 m) मलो. कथ. । n) व्यु. ? =जन्तुविशेष- (तु. वैप १ पुरस्वरूप-) । o) वा. क्वि. (=न. द्वि१) । p) तु. सस्य. टि.
 नारायण-> णः । q) पा. ? नैप्र. <पर-(सना.)> -रस्मिन् इति तत्परः शोषः द्र. [वैतु. j.c. 'तपांसि' इति मुपा.
 तैश्चा १०, ६२, १), यत्र यनि. >नैप्र. एव पांसि>त° इति शोधभासाः] । r) मा ३१, १८ । s) तैश्चा १०, १, १ ।
 t) 'पुरस्ताव' इति शोधः द्र. (तु. गोत्रा १, १, २२) । u) पराशत° इति मुपा. यनि. शोषः द्र. ।

सांका द; -क्षेण ए दे, १४; वृ ४, २, २.

पारोक्ष्य-

पारोक्ष्य-शबल- लः

अध्या ३०; पै ३, १^१.

परोक्ष-ज्ञान- नम् वरा २, ४१.

परोक्ष-मिय- -या: ऐ दे, १४^३;

वृ ४, २, २.

परोक्ष-हर- -र: स्व ६१: १०;

-रै: स्व ६१: ८.

परोक्षा(त्-अ)वभासित- स्ते

(इत्म्^१) अध्या ४०.

परो-नवस- -जसि वृ ५, १४, ४;

गा १०; -जसे वृ ५, १४, ७;

त्रिवि ७, ४४; त्रिता १, ६; ३३;

४८; म ४९: ११; पारा ३; ६;

गा २३; -जा: वृ ५, १४, ३^३; ६;

गा ७; ८.

परो-वरीयस्- -य: छां १, ९, २-४;

२, ७, १; २^३; -यस: छां १, ९, २;

२, ७, २; -यांसम् छां १, ९, २;

आपें ९: १५; -यांसि छां २, ७,

१; -न्यात् छा १, ९, २.

परोवरीयस्-स्व-

परोवरीयस्त्वा(त्-आ)दि-

परोवरीयस्त्वादि-वत्

मसू ३, ३, ७.

परा^१

परा-वत्- -वत्: वृ ६, २, १५; आपें

८: ९.

पराग^२-

पराग-घटो(त-उ)न्मा(द>)दा-

-दा: सार २५९: १^१.

पराग-मुत्- -मुत् कान्मे १७.

पराग-वत् वरा ३, २२.

परागो(ग-उ)द्घृत-परिधि- -वय:

सार २५३: १३.

परा/गा, परागाः, परागाम् कर १;

कथु २, ३.

परा/जि

परा-जय- -य: योशि ५, ६१.

परा(रा/अ)ञ्च्

परा(रा-अ)व्, ङ्च्- -राह् क २, १,

१; ऐ दे, ३; वृ ४, ४, १; अरु

२६^१; -राच: क २, १, २;

-राच: छां १, ६, ८; ७, ७; -राचि

क २, १, १.

पराग्-दधि- -धि:, -द्व्या त्रिवि

४, १२.

पराह्-मुख- -स्व: शि ७, १६;

-स्वम् अध्या १५.

परा/दा(दाने), परादाव् वृ २, ४, ६^३;

४, ५, ७^३; परादुः वृ २, ४, ६^३;

४, ५, ७^३.

परा/भू, >भावि, परा...भवति

वृ १, ३, ७; पराभवन्ति २प्र

३६: १२; पराभवन् शौ ५२:

११; १७; परा (अभवन्) वृ १,

३, ७.

पराभविव्यति २प्र ३६: १३;

पराभविव्यन्ति छां ८, ८, ४.

पराभावयन्त २प्र ३६: १^३;

पराभावयन् शौ ५१: ५; ५२:

२२.

पराभावविव्यद्य शौ ५१: ३.

परा-भावयत्- -यत् शौ ५३:

१०.

परा/मृश्र, परामृश्रोत् नाद ३६.

-परामृश्यते महा २, ४४.

परा-मर्श- -शो: महा ५, १६; मसू १,

३, २०; -शोम् मसू ३, ४, १८;

-शोत् सां ४, १७.

परामर्श-विवर्जित- -त्त: महा

६, ५०.

परा-मृष्ट- -ष्ट: १संन्या २, ३१.

परा/वप्, परा...वप नी २, १५^१.

परा/वृत्, परावृत्त् शौ ५१: ७;

५३: ४.

पराशर^१-

पाराशर्य^१- -ऽर्थ: वृ २, ६, २^३; ३; ४,

६, ३; -यम् गार ४०७: १३;

-ऽर्थोत् वृ २, ६, २^३; ३; ४, ६, ३.

पाराशरी^१-

पाराशरी-पुत्र- -त्र:, -त्रात्

वृ ६, ५, १^३; २^३.

पाराशर्योयण^१- -यण:, -णात् वृ

२, ६, ३; ४, ६, ३; ३.

परा-सं/पद्, परा...संपद्यते आपें

९: ९.

परासं-पद्यमान(>)ना^१- -ना:

आपें ९: ७; ९.

परा/सू(सिरेण), ऽपरासुव,

ऽपरा...सुव मना २, ३९.

परि^१ छा ३, १७, ७^३; मैत्रि ६, २४^१;

मना १, ७^३; २, ७६^३; व

४४४: १^३; ४४९: १९^३;

४५३: ७^३; ४६४: ५^३.

परि-कर^१- -र: द १; १५^३; शि १,

१८.

परि/कृत > कीर्त्त, परिकीर्त्तते वरा

२, ६०.

परि-कीर्त्तित, ता- -त्त: मैत्रे २, १७;

४) परो^१ इति अग्न्या । ५) पा: यनि. शोध: द्र. (तु. अग्न्या. संदि.) । ६) वेणु इ यद । ७) व्यु: इ = पुणरजम् । ८) ऽन्मदा: इति मुपा. यनि. शोध: द्र. । ९) तैश्चा १, २७, ४^१ । १०) मा १६, १ । ११) व्यु: इ = नोप-प्रवर्त्त-श्रुतिविशेष- । १२) पा ४, १, १०५ । १३) पा ४, १, १६; ६, ४, १५० । १४) वैतु. वे. । १) मू ५, ८२, ५ । १६) मू २, ८२, ४ । १७) पश्यमयोर्बुद्ध्या: कप्र. । वेणु इ यद. । १८) मू १, ५०, १० । १९) 'पर्यम्' इति मुपा. 'परम्' इति भाव. संदि. च यनि. शोध: द्र. (तु. सात.) । २०) मा १३, २० । २१) मू २, १, १ । २२) मू १, ७, १० । २३) व्यु: इ = गतिप्रयत्न- ।

अवि ५,६; १योत २३; सी २४;
 सार २, ३९; १संन्या २, ८२;
 यो २, २०; जाद २, १४; ४,
 ३७; ८, ५; १प्र ३१: ८; १०;
 गु ८३; गी १८, ७; २७; -तम्
 वृजा ५, १७; १योत ८८; यो १,
 ६०; नाप ३, ८; शि ५, १२; ६,
 १; ३३; ७, १३३; -ता अना
 १६; १योत २०; सी २१; २२;
 सार २, ३१; गु २५; -ता: महा
 ४, २; शि ६, २४६; ७, १०१;
 -तौ गु १२.

परि/क्रम, >काम्^b, परिक्रामति
 वृप् ५, ७.

परिचक्राम सार २७६: १७.

परि-क्रम- -मम् सार २५६: ६.

परि/क्री, परिक्रीयते म्रस् ३, ४,
 ४५.

परि/क्लिश्

परि-क्लिष्ट- -ष्टम् गी १७, २१.

परि-क्लेश- -शे शि ७, ११९.

परि/कल्प (<कृप्)>कल्प, कल्पि,

परिकल्पयेत् शि ६, २०६; २२३.

परि-कल्पित, ता- -त: १संन्या २,

१८; -तम् वरा २, ६५; -ता:

नाप ६, १०; जाद ७, १९; -ताम्

शि ७, ७८; -ते शि ७, ४९; -तौ

वरा २, ५१.

परि-कल्प्य म २, २४.

परि/क्षि(च्ये)

परि-क्षय- -य: जाद ६, ५०.^१

परि-क्षी(ण>)णा- -णा योशि १,
 ३६.

परि/क्षि (निवासे)

परि-क्षित^{१०}-

पारिक्षित- -ता: वृ ३, ११.^१

परि/ख्या, परिख्यायते ह्य ८, ७, ४.^१

परि/गल्(*वधा.)

परि-गलित^१-

परिगलित-समस्त-जन्म-

पाश- -दा: अक्ष २, १६.

परि/गा, पर्यगात् ई ८.

परि/गृह्, गृह् (>भ्), परिग्रहेत्

आठ १; ३; १योत ६७; नाप

३, ८६; ४, ३८; पहं १; ४;

१संन्या २, ९.

पर्यगृहीत् कौ २, ११७.^१

परिग्रमाह वृत् ६, १; १^१परि-

जग्रभत् श्वे ४, १९; मना १, २;

गु ६२.

परि-गृहीत, ता- -तम् वृ ५, ५, १;

मना २, ७८७.^१; १शितं ४७.^१;

२शितं १७.^१; -ताम् ह्यं ३,

११, ६.

परि-गृह्य कौ ३, ३; वृजा ७, १;

काला ६; नाप ४, ३८; त्रिवि

५, ४; १२; १३; ६, २१; १संन्या

२, १२; प ४१८: ३३.

परि-ग्रह- -ह: नाप ३, २८; १संन्या

२, ८१; ८२; -हम् नाप ३, २९;

गी १८, ५३.

परिग्रहा(ह्-अ)वलम्ब- -म्ब:

मै ३, ५; मैत्रि ३, ५.

परि/गै>गा, परिगीयते १योत ४०;

अक्ष ५, ५६.

परिघ- परि/ह्व द्र.

परि/चक्ष्, परिचक्षते गौ ३, ४७; गु

१७; ८०; गी १७, १३; १७;

परिचक्षीत तै ३, ८, १.

परि/चर्, >चारि, परिचचार ह्य

४, १०, १; पर्यचारीत् ह्यं ४,

१०, ४; परिचचारीत् ह्य ४,

१०, २.

परिचारयस्व क १, १, २५.

परि-चरत्- -रत् ह्यं ७, ८, १; ८,
 ८, ४.

परि-चरित्- -रिता ह्यं ७, ८, १.

परि-चर्य- -र्य: ह्यं ८, ८, ४.

परि-चर्यमा(ण>)णा- -णा सी ३७.

परि-चर्यां^१-

परिचर्यां(र्यां-आ)मक- -कम्

गी १८, ४४.

परि-चारयमाण- -णम् वृ ६, २, १.

परि-चारि(त्>)णी- -णी ह्यं ४,

४, २; ४.

परि/चर्च्

परि-चर्चित- -तान् पाशु १, २७.

परि/चि(*वधा.)

परि-च्य^{११}- -य: १योत २०; वरा

५, ७१.

परिचया(य-अ)वस्था- -स्था

१योत ८१.

परि-चित^१- -त: १योत ८२.

परि/चिन्त् >चिन्ति

परि-चिन्तयत्- -यत् गी १०, १७.

परि/च्छिद्

परि-च्छिन्न- -न्न: १भा १४; -न्नम्

ते ५, ९५; ६, २७.

परिच्छिन्न-त्व- -त्वात् सांम् १,

७६.^१

परि-च्छेद-

परिच्छेद-रहित- -तम् त्रिवि १,

५; ७, १७.

परि-जन्^{१२}- -नस्य गर्भं ४.

परि/जप्

परि-जप्य व ४५९: १.

परि/जीव्, परिजीवति योशि १, ४६.

परि/ज्ञा

परि-ज्ञात- -ते नाद २७.

परिज्ञात-स्वभाव- -न्वम् महा

२, २८; -न्वस्य अक्ष १, ४१.

a) ^{१०}त: इति अच्चा. । b) पा ७, ३, ७६ । c) वैपश् यद्र. । d) धा. धारणे वृत्ति: द्र. । e) 'पर्यगृह्णात्' इति
 शांन्या ४, ११ । f) मा ३२, २ । g) तैश्चा १०, ६२, १ । h) मा ३४, ४ । i) पावा ३, ३, १०१ । j) =योगवस्था-
 विशेष- । k) धा. चयने वृत्ति: द्र. । l) ^{११}ञं न इत्यपि पाठे. । m) प्राच. ।

परि-ज्ञान- -ता गी १८, १८.

परि-ज्ञावा^१ बोधि ६, ७४; यो ३, ९; १२.

परि-ज्ञान-

परिज्ञानै(न-ए)क-तत्-पर-

-रा: जाद २, ५.

परि-ज्ञाय महा ५, ७१; १संन्या २, ४१; अक्ष ५, १५; अथा ५, १.

परि-ज्ञेय, या- -यम् शि ६, २४४; -या उ ७९.

परि/ण(<नम्, >णामि, परिणा-
मयेत् श्वे ५, ५.

परि-णत- -तम् मैत्रि ३, ३; महा ५, ६२.

परि-णमन- -नम् अक्ष १, ५४.

परि-णममान- -नम् अव्य १.

परि-णाम- -मम् वरा १, ८; -मात्
मसू १, ४, २६; -मे गी १८, ३७;
३८.परिणाम-क्रम-समाप्ति- -ति:
योसू ४, ३१.

परिणाम-तत्स(>): सांक्ष १६.

परिणाम-ताप-संस्कार-दु:ख-
-क्षै: योसू २, १५.परिणाम-त्रय-संबन्ध- -मात्
योसू ३, १६.परिणाम-त्व- -त्वात् मैत्रि ६,
१०.परिणामा(म-अ)न्यत्व- -त्वे
योसू ३, १५.परिणामा(म-अ)परा(र-अ)-
न्त-निर्माह- -कः योसू ४,
३२.परिणामा(म-अ)वलोकन- -नम्
भा २, १^१.परिणामै(म-ए)कत्व- -त्वात्
योसू ४, १४.

परि-णि(<नि) / चिद्, परिचयि-

शान्त वृ १, ३, १८.

परि-तप्त(>): कौ २, १३१^१; त्रिमा२,
६४; त्रिवि ६, १; ५; २०; २३;शां १, ४; रार ३, १^१; जाद ४,

६; १२; सार २२२: ११; १८;

२२४: २०; २२५: ११; २३३:

१९; २३४: २; २३७: १२;

२३८: ९; २३९: ४; २५६: ४;

२५८: १९; २६९: ६; २७०: ४;

२७४: २३; शि ४, ७; -तः-तः

सार २८४: ९.

परि/तुप>तोषि

परि-तोष्य नाप ६, १८; कालि

४०३: १७.

परि/तृप्

परि-तृप्ति- -ति: कौ १, १२.

परि/त्यज्, परित्यजति शा २६;

परित्यज ते ६, १०४; महा ६,

३४; अक्ष ५, ३७; १०२; परि-

त्यजेत् आरु ४; त्रिवि ३६; नाप

३, ७; १संन्या २, ५९; अक्ष १,

४६; अद्वै १४; शि ७, २८.

परि-त्यक्त, क्त- -क्त: रार ४, २,

छाग २५: १९; -क्तम् महा २,

५२; शि ६, १६७; -क्ता: महा

२, ५८.

परि-त्यजत्- -जत् वरा ५, ७२;

-जन्त: मैत्रे १, ४, १३.

परि-त्यज्य जा ६; हं १७; अशि

४, २३; अ ३; नि ५२; ते ४,

३८; नाद २६; नाप ३, ३३;

८६^१, १, १; ३: ३२; ७; सं १, ४,

३; २, ३, ६; ७; श ३०; त्रिवि ५,

१२; ८, १२; पदं ३; शां १, ७,

२०; महा ४, ३६; ८३; ५, ५१;

६, १; १संन्या २, ७९; पपु १९:

२; अक्ष ४, ५१; ५, ११४; अदि

४७; अथा ३५; पत्र ३, १४;

जाद १, २२; ४, ५८; ५, १३;

या २, १; वरा २, ४९; ८३; सौ

२, १३; मु २, २, ६८^१; ७०;

७१; अद्वै ८; सार २३१: ६;

२४८: २०^१; २८०: ८; १२; वटु

३१६: १६; शि ६, १६५; गी

-१८, ६६.

परि-त्याग- -ग: महा २, ३९; अक्ष

५, १५; गी १८, ७.

परि-त्यागिन्- -नी अक्ष २, ५; ९.

परि/त्रै>त्रा

परि-त्राण- -णम् शि ७, ९६; -णाय

गी ४, ८.

परि/दह्, परिदहते गी १, ३०.

परि/दा (दाने), परिददानि छां २,
२२, ५.

परि/दिष्>देवि

परि-देवना- -ना गी २, २८.

*परि-देवया-

*परिदेवयां/ह्, परिदेवयांक्के

२प्र ३६: ७.

परि/दीप्

परि-दीपक- -कम् गौ ४, २१.

परि-दीपित(>)ता- -ता गौ ४,
१९.

परि/दृश्, परिदृश्यते महा २, ३३;

४, ५०; परि...दृश्ये कर, ३, ५.

परि-दृष्ट- -ष्ट: योसू २, ५०.

परि-द्रष्टृ- -दृष्टु: प्र ६, ५.

परि/धा, >धापि, परिधत्ते भ २, २;

परिदधाति मैत्रि ६, १^१; परि-

दधति छां ५, २, २.

परिधापयति सार २७१: १०;

२८७: ४.

परि-धान- -नस्य वृ ६, २, ७.

परिधानी(य>)या- -याया:

छां ४, १६, ३; ४.

परि-धाय भव १, ५५.

०) पा ७, १, ३८। १) ०नरिष्य^० इति निशा. यनि. बोध: इ. (द्व. तान्त्र.)। ०) 'परिचिद्यन्ते' इति
छांया ४, ११। १) ०त्यजेत् इति अथा.। ०) संपरि^० इति निशा.।

परि-धि^१- -धयः मुद्र १, ६५^०; सार
२३९ : २; २६६:५; -धीनाम्
शि ४, ६२.

परिधि-श्रय- -यम् शि ५, ४.

परिधी/कृ

परिधी-कृत- -तम् सि ५,
८; ६, ७.

परि/धाव्(गतौ), परिधावति त्रिवि
५, ४; महा ५, ९३; जाद ६, ४८.

परि/नश (अदर्शने)

परि-नष्ट- -ष्टे मं ३, १, ५.

परि-निर्/धा, परिनिर्वाभि अक्ष
३, ९.

परि-नि/घ्रा (<स्था)

परिनि-घ्रा- -घ्रा सांस् १, ६८.

परि/पच्

परि-पक्, क्वा- -क्वः मं २, ४, ४;

-क्व(१कम्^१) त्रिवि ५, ९; -क्वा ते
१, ४५; -क्वाः योशि १, २५.

परि-पाक- -क्वेन वरा ५, ४८.

परि/पद्^०

परि-पा(दि^०>)टी- -टी शु ८३.

परि/पद्, परिपद्यते त्रिवि ४०.

परि/पत् (गतौ), > पाति, परिपतन्ति
छां २, ९, ४.

परिपातय मना १, ५५^०.

परि-पन्थिन्^१- -न्थिनि या २, २०;
-न्थिनौ गी ३, ३४.

परि/पश, परिपश्यति सूता १, ८;

परिपश्यन्ति सुं १, १, ६; २, २, ७;

- २शिसं १५५^०; पर्यपश्यत् छां १,
४, ३; परिपश्येत् छां १, ४, ३;
अक्षि ४४.

परि/पा(रक्षणे), परिपाति सं ७.

परि-पाल^१-

✓ परिपालि, परिपालयति त्रिवि

८, १२; परिपालय त्रिवि ८, १७.

परिपालित- -तः शि ७, १०६.

परि/पीड

परि-पीडित- -ते जाद १, १७.

परि/पूज्

परि-पूज्य कालि ४०३:१९.

परि/पू>प्

परि-पूर्ण, णां- -र्णः मै ३, ५; मैत्रि

३, ५; ४, ४; शु ३, ३; ते ४, ५;

त्रिवि ८, ५; अक्ष ४, ६७; अध्या

६८; शि ६, ११३; -णम् मै ३,

४; मैत्रि ३, ४; मैत्रे १, ३; पै १,

३; वृष्ट ९, १७; त्रिवि ७, १७;

अध्या ६०; वरा २, ७३; अद्वै २१;

-णस्य अक्ष ४, ७; ण्यां अक्ष १,

५०; -णं अध्या २३; मं ५, १, ३.

परिपूर्ण-चन्द्र-मण्डल- -लम्

मं २, १, १०^१.

परिपूर्ण-चन्द्रा(न्द्र-अ)श्रुत-

-तस्य मं २, २, ५^१.

परिपूर्ण-चन्द्रा(न्द्र-अ)श्रुत-रसै-

(स-ए)कीकरण- -णम् आप् ५.

परिपूर्ण-ता- -ता शु १, ३, ६.

परिपूर्ण-स्व- -स्वात् शि ६, ३९.

परिपूर्ण-ध्यान- -नम् भा ४१.

परिपूर्ण-परमाकाश-मग्न-

मनस्- -नाः मं ३, २, १^१.

परिपूर्ण-राज-योग-

परिपूर्णराजयोगिन्- -गिनः

आप् ६.

परिपूर्ण-वेदन- -नः वरा २,

३१.

परिपूर्ण-स्वरूप- -यम् योशि १,

१९.

परिपूर्ण-स्वरूपक- -कः ते ५,

६६.

परिपूर्ण-स्वा(स्व-अ)सै-

(स्व-ए)स्य-रूप(प>)पा- -पा
भा २६^१.

परिपूर्ण(र्ण-अ)नन्द- -न्दः

त्रिवि १, १.

परिपूर्ण(र्ण-अ)न्तर- -रम् महा

५, ६८.

परिपूर्ण(र्ण-ए)क-चिन्मय- -यः

महा ६, ६३.

परि-पेल(व>)वा- -वा महा ३, ८.

परि/प्रच्छ, > पृच्छ, परिपृच्छति

त्रिवि १, १; ८, १, ३; ७; पाशु १,

२; गार ४०५:२; ३.

परि-पृच्छक- -कः २प्र ३५:२०.

परि-प्रक्ष- -क्षम् १संन्या २, ८५;

-क्षेन गी ४, ३४.

परि-प्रा(श>)प्^१- -प्राद् पा १.

परि-प्र/वच्, परिप्रवोचन् छां ४,

१०, २.

परि/प्लु

परि-प्लव-

पारिप्लव-

पारिप्लवा(व-अ)र्थ- -यां:

प्रस् ३, ४, २३.

परि-भ्व- , परि-भावितश्च- परि-

✓भू द.

परि/भाप्

परि-भापा^१- -पा इ १०:१९.

परिभापिक^१- -कः सांस् ५, ५.

परि/भुज(वौटिल्ये), परिभुज नी २,

१७^१५^०.

परि/भू, > भावि, परिभवन्ति नाप

६, ४.

५^०परि...भवत् मना २, ५४; पा

६, ८; परि...भवत् य ४३७:

१६^१५^०.

a) श्र १०, ९०, १५। b) पा.१ यनि. शोषः द.। c) गतौ भ्वा.। d) भाप.। e) तैश्चा १०, १, ५।
f) वैप १ यद.। g) मा ३१, १९। h) वृ. वैप १, ०५। i) उपरिपूर्णं इति निमा.। j) *तारस्य इति निमा.।
k) *पाकां इति निमा., अम्या. संदि.। l) पूर्णां स्वां इति अम्या.। m) पावा ३, २, १७८; पा ६, ४, १९; ८, ३,
३६। n) *म्भु इति मुग. यनि. सु-शोषः (वृ. मा १६, ११)। o) श्र १०, १२१, १०। p) श्र १, ६९, १।

परिभूयते महा ३, ३४; योशि
५, ५०; परिभूयसे महा ४, १३१.
परि-भव-
परिभवा(व-अ-)
सह-हः वृत्
२, ११.
परि-भावितव्य-व्यम् योशि १,
९०.
परि-भू-भूः ई ८.
परि/भ्रंश्
परि-भ्रष्ट-ष्टः शा २८.
परि/भ्रम्, परिभ्रमति मै २, ९; ३, १;
२^१; मैत्रि २, ६; ३, १; २^२; पै १,
३३; परिभ्रमन्ति पित्र ५, ३.
परि-भ्रमन्-मन् कुं ३.
परि-मल*-
परिमली/कृ
परिमली-कृत-तम् रा ४२५; २
परि/मा(माने)
परि-माण-णात् सांस् १, १३०^०;
सांका १५.
परिमाण-वातुर्विष्य-व्यम्
सांस् ५, ९०.
परि-मित-इ^०ता ग ६; सर २,
६; नाप् ५, ३२; -तामि पे १,
१८; -तेन महा ५, १२२.
परि/मुच्, परिमुच्यते मैत्रि ६, ३४;
वरा ३, १२; इ^०परिमुच्यन्ति मुं
३, ३, ६; कै १, ४; मना २, १२,
३; भव ३, ३३.
परि-मुक्-क्म् इ १२; १०.
परि/मुप्
परि-मोपिन्-पिणः वृ ३, ९, २६.
परि/मुद्, परिमुद्यसि महा ३, ४०;
या २, ६.
परि-मुद्यमान-नाः ये ६, १.
परि-मोद्-हाय महा ३, ८.
परि/मु, परि^०प्रियम्मे तै ३, १०, ४.

परि-मर-रः तै ३, १०, ४; कौ २,
१२^०.
परि/मृग् > माग्निं
परि-मार्गितव्य-व्यम् गो १५, ४.
परि/मृज्, > मार्जि, परिमार्जयति
सार २५०; २१.
परि-मार्जयत्-यत् सार २५०;
२०.
परि-मृज(त् >)न्ती-न्त्यः सार
२२८; २०.
परि/मृश्
पि-मृ(ष्ट >)ष्ट-ष्टा अक्षि २८.
परि/रक्ष्, परिरक्षति सुवा ४.
परि-रक्षित्-ता प्र २, ९.
परि/लिप्
परि-लिप्य वृ ६, ३, १.
परि-वत्सर^१-राः मना २, ८०^१.
परि/वद्
परि-वाद-दात् नाप ६, ३२.
परि/वस् (निवासे)
पयुं(रि-उ)पित-तम् सुवा १२;
भव ४, १३; गो १७, १०.
परि/विद्(ज्ञाने), परिवेद व ४५५;
२१^१.
परि-वि/वृज्
परि-वि-वर्जन-नम् जाद १, १३.
परि/विप्
परि-विन्व्यमाण-णौ ह्य ४, ३, ५.
परि-वे(ष्ट >)ष्टी-ष्टी कौ २, १^१;
-ष्ट्रीम् कौ २, ११^१.
परिवेष्टी-मत्-मात् कौ २,
११^१.
परि/वृ(आच्छादने), > वारि, पर्व-
वारयन्त २ प्र ३३; १८.
परि-वार-
परिवारा(र-ञ्)निमत-ताः पी
४२२; १३.

परि-वारित-तः शि २, ३०; ४,
२५; ५३; ५, २५.
परि-वृत्, ता-तम् रार २, ३५;
वरा ५, २१; -ता सी ३७; ह
१७; व ४४३; २२.
परि-वृक्ण-परि/व्रक् द्र.
परि/वृज्, > वर्जि, परि^०वृणुण् नी
२, १४^१.
परिवर्जयेत् नाप ६, ३१.
परि/वृत्, > वर्ति, परिवर्तते वृ २,
१, १८; ४, ४, १६; ये ६, ६; १ प्र
३१; १५; परिवर्तते वृ २, १, १८.
परिवर्तयामि प्रा २, १.
परि-वर्तमान, ना-नम् योचू ७२;
-नस्य सांस् १, १५२; -ना सी
१४^१; -नाः वृत् ६, ४.
परि-वर्त्यं मैत्रि ६, २१.
परि/वृष्, परिवर्धते भव ४, १८.
परि/वेष्ट, > वेष्टि
परि-वेष्टयि(त् >)त्री-त्रीम् शु
५७;
परि-वेष्टित, ता-तः त्रिवि ५, १२;
७, १; -तम् त्रिवि ६, ३; २२;
२३; सार २४५; ६; सि २, ११;
३, ३; ४, ८; ५, २; १०; ६, १४;
३५; -ताम् त्रिवि ६, १०.
परि-वेष्टित्-ताम् ये ३, ७; ४,
१४; १६; ५, १३.
परि/व्यष्, परिष्ययाः प्र ६, ६.
परि/व्यज्, परिष्यजति नाप ३, ७७;
पर्ययजाम वृ ३, १; परि-
ष्यजेत् नाप ५, १; परि^०ष्यजेत्
कौ २, १५.
परि-व्यजन-
परिव्यजना(न-ञ्)धिकारिन्-री
पप ४१७; ३.
परि-व्यय नाप ३, ५५; ८६.

a) व्युः = पुगन्थ- । b) ०णामाद् इत्यपि पाठे. । c) श्र १, १६४, ४५ । d) तैच्चा १०, १०, ३ ।

o) सारः इति अग्या. । f) वैपरी यद. । g) तैच्चा १०, ६४, १ । h) तैच्चा ३, ११, १ । i) ०वृ^० इति अग्या. ।

j) 'परिवेष्ट' इति शांका ४, १ । k) ०वेष्ट्मान् इति शांका ४, १ । l) मा १६, १२ । m) ०नाः इति आधिक्यः निता. सुपा. ।

1914

[The following text is extremely faint and largely illegible due to the quality of the scan. It appears to be a list or a set of notes.]

1914
 1915
 1916
 1917
 1918
 1919
 1920
 1921
 1922
 1923
 1924
 1925
 1926
 1927
 1928
 1929
 1930
 1931
 1932
 1933
 1934
 1935
 1936
 1937
 1938
 1939
 1940
 1941
 1942
 1943
 1944
 1945
 1946
 1947
 1948
 1949
 1950
 1951
 1952
 1953
 1954
 1955
 1956
 1957
 1958
 1959
 1960
 1961
 1962
 1963
 1964
 1965
 1966
 1967
 1968
 1969
 1970
 1971
 1972
 1973
 1974
 1975
 1976
 1977
 1978
 1979
 1980
 1981
 1982
 1983
 1984
 1985
 1986
 1987
 1988
 1989
 1990
 1991
 1992
 1993
 1994
 1995
 1996
 1997
 1998
 1999
 2000

मैत्रि ७, ९; परि... इयन्ति मना
१, ४५^b; पर्येपि सु२९३: १७५^c;
पर्येपि वा १७.

परी(रि-इ)त्य मना १, ४¹५^d.

पर्या(रि-आ)य- -यात् ऋस् २, २,
३५; -येण त्रिमा २, ११७; आये
८: १; १३.

पर्ये(रि-ए)वृ- -त्ता छां ३, ६-१०, ४.

परी(रि-इ)त्

परी(रि-ई)क्षक- -कैः योशि १,
१५५.

परी(रि-ई)क्षित- -तम् भव ३, २०.

परी(रि-ई)क्ष्य सुं १, २, १२; ते ६,
१०९; शा ३४५^e; सुं १, १, ५०;
५२५^f; तिशि ३८३: ११.

परी(रि-इ)प्(गौ)पर्येपिपम् छां १,
११, २.

परुप-

पादन्त्य- -न्यम् भव ५, ४; गी १६, ४.

परुष्णी^g- -ष्णिया मना १, १३५^h.

परुस्- -ईः ख्यः-रुयः मना १, ७; व
४६४: ५.

परे(रा-इ) परीति आये ९: ८; परेहि
मना २, ४६५ⁱ.

परे(रा-इ)त्- -तः भ २, २१; व
४६०: ७५^j; -ताः भ २, ३०.

परे(रा-इ)त्य कठ १; क्यु २, ३.

परेच्छ- -परेयुः, परेश- पर- द्र.

परोक्ष-, परोत्जस-, परोवरीयस-
परस्- द्र.

पर्जन्य- -न्यः प्र २, ५; सुं २, १, ५;
छा ३, १, ३; ४; ५, ५, १, २, २.

२; वृ १, ४, ११; २, २, २; ६, २,
१०; मना २, ७९५^m; भव्य २,

ए १; सू ८; इ ११: ३; पा ३,
१; शि ६, १५८; गार ४०८:

८; गी ३, १४; -न्यात् गी ३,
१४; -न्ये छां २, १५, १; २; ५,

२, २, २; -न्येन मना २, ७९५^m.

पर्णⁿ- -र्णम् मना २, ४५५^o; शा १९;

-र्णाति छां २, २३, ३; वृ ३, ९,
२८, १; गी १५, १.

पर्ण- -र्णानाम् गठ २४.

पर्ण-म(य>)यी- -यी भ १, ३.

पर्यङ्क¹⁰- -ङ्कः कौ १, ३; -ङ्कम् कौ १, ५.

पर्ये(रि-अ)द्, पर्येत नाप ४, १९;
पर्येत् नाप ४, १७; १९¹¹; ५,

३; ८; यो २, ११; शि ७, २९;
४६; ६०.

पर्ये(रि-अ)टत्- -टत् वलि १.

पर्ये(रि-अ)व्र √स्रो, पर्यवस्यति रा
५, ३.

पर्यव-सित- -तः वृत् ६, ४.

पर्ये(रि-अ)व √स्था > तिप्द्, पर्यव-
तिप्दते गी २, ६५.

पर्ये(रि-अ)वे(व/इ), पर्येवैति वृ ६, २,
१६.

पर्ये(रि-अ)वे(व/इ)क्ष्, पर्येवैक्षते कौ
१, ४¹²१.

पर्ये(रि-अ)ङ्ग्, (ग्यात्) परि... अश्नोति
वा २०¹³.

पर्ये(रि-अ)स् (निपण्ये)

पर्ये(रि-अ)क्ष्यत्- -स्यन्तम् वृ १९

पर्या(रि-आ)स- -सः भाये ७: १०.

पर्या(रि-अ)प्

पर्या(रि-आ)स- -सम् भाये ७: २२;

शि ७, २६; गी १, १०.

पर्यास-काम- -मस्य सुं ३, २, २.

पर्याय- परी द्र.

पर्या(रि-आ) √अर्

पर्या(रि-आ)रण- -णः वा २५.

पर्या(रि-आ) √वृत्, > चर्ति, पर्यावर्तते
वृ ४, ४, १; पर्यावर्तन्ते भाये ७:

१८.

पर्यावर्तयान् छां १, ५, २.

पर्यु(रि-उ)क्ष्

पर्यु(रि-उ)क्ष्य कौ २, ३.

पर्यु(रि-उ)पा(प/अ)स्, पर्युपासते
छां ५, २४, ५, ६, १५, १; गी ४,

२५, ९, २३; १२, १; ३; २०.

पर्युपित- परि √वत्(निवास)े द्र.

पर्ये(रि-आ) √इ

पर्ये(रि-इ)ष्य छां ५, १, ८-११.

पर्येत्- परी द्र.

पर्वत- -तः सू २१५¹⁴; सार २५५¹⁵

१५; १९; २५८: १८; -तम् मैत्रि
६, १८; सार २५५: २१; शि
६, ७३; -ताः छां ३, १९, २; ७,

६, १; ८, १; १०, १; वृ १, १, १;
सुभा २; योशि ६, ११; सार २२३:

२३; २२४: ११; २शिसं ९;

पित्र १, १०¹⁶; वत् ४, ४२; -त्वात्
सर २, २५¹⁷; -त्वात् वत् ३, २३;

-तानाम् वा १०; -ते वा ९५¹⁸;

सार २४६: ६; २५५: १९;

२५६: ९; शि ६, ७७; -तेभ्यः

a) पा. १ यन्ति नैत्र. <यद्धि (=यव हि) इति कृत्वा षुपरि-यत् (=तद् इत्यस्य विप.)> प्र १ इति

कृत्-परः शोधः द्र. (तु. नाव. टि. कृद्पुः पभि.)। b) 'षुद्वय' इति मा ३२, १२। c) ऋ ९, ८३, १। d) मा ३२,

११। e) विष २९, १०। f) व्यु. इ. =कठोर-। वैपश् यद्र.। g) वैपश् यद्र.। h) वृ १ [तु. तैत्रा १०, १, १३

(पुरुष्या) इति ऋ १०, ७५, ५]। i) मा १३, २०; तैत्रा १०, १, ७। j) गवृ. (इ १६१) √इ > एति

१४, ४। o) व्यु. इ.। p) एत्- > -त् इति निसा. यनि. शोधः द्र. (तु. अश्या.)। q) 'पर्येवैक्षत' इति

शोभा ३, ४¹⁹; व.। r) गवृ. (इ ११०) सस्य. सङ्घत एतद्वत् शोधः द्र.। b) ऋ १०, १५८, ३। c) ऋ ५,

वृ ३, ८, ९; -नेपु क २, १, १४;
-तौ कौ २, १३.
पर्वत-धातु- -तूनाम् अना ७.
पर्वत-मूर्धन्- -र्धनि मना २, ३६९.
पर्वत-वन-देवतालय- -येषु नाप
४, ३८०.
पर्वत-घर- -रम् शि ६, ६६.
पर्वत-वृक्ष-नृण-गुल्म-लता(ता-आ)
घ(दि-अ)नन्त-वस्तु-भेद-
-इः त्रिवि ८, २.
पर्वता(त-अ)म- -मे जाद ५, ४.
पर्वते(त-ई)श-पदम्- -दम् वज
४, ३४.
पर्वते(त-ई)शो(श-ऊ)र- -रुम् वज
४, ३७.
पर्वन्^{१०}- -र्वणि कौ २, ४; तुल ७०:९;
वज ६, १०; ४४; -र्वभिः इ १८:
२२; -र्वसु शि ७, ७८; -र्वणि
वृ १, १, १.
पार्वण-
पार्वण-चन्द्र-कोटि-सह-
श-च्छत्र- -त्रेण रार २, ३७.
पार्वणा(ण-आ)दि- -दीनि
पै ४, ६.
पर्व-ग्रन्थि-विराजित- -तम् १संन्या
२, १०.
पर्वो(र्व-उ)स्य- -वेषु शि ७, ९.
पशु^{११}- -श्वे वृ १, १, १.
१पार्श्व- -श्वयोः वृजा ४, १४; ३०;
३१; ३५; सिसि ३८१:१८;
-श्वं वृ १, १, १; ३, ३; -श्वो व
४३६:१३; पितृ १, १०.
पार्श्व-दन्त-पटल- -लानि गर्भं
५.

पार्श्व-द्वय- -ये योशि ५,
१८.
पार्श्व-परीवर्त- -तैः गु २४.
पार्श्व-शिरो-धमनिका(का-अ)-
क्षि- -क्षीणि २था १, ११.
*पर्वद^{१२}-
पार्वदे^{१३}- -दाः सार २८५:२०.
१पल^{१४}- -लम् त्रि १२१; सुमु ९
२पल^{१५}- -लम् शि ६, २९; -लानि
गर्भं ५.
पल-द्वय- -यम् शि ६, ८७.
पल-नेत्रेण- -द्यम् शि ६, ३०.
३पल^{१६}- -ले-ले शि ६, २५३.
पलल^{१७}- -लम् नाप ७; १संन्या २,
७९.
पलल-पिण्ड- -ण्डम् अशि ४, ५;
वृपु २, १०; त्रिता ४, १९; वट
३१५:२०.
पलाण्डु^{१८}- -ण्डुम् रुजा २, १७.
पला(ला<रा/अ)य, पलायन्ते वृपु
२, १४.
पला(ला-अ)यित- -तम् आनो २१;
१अव २८.
पलाल^{१९}- -लम् त्रिवि १८; त्रिता ५,
१८; अवि १८.
पलाश^{२०}- -शानि छा ५, २, ३; वृ ६,
३, ७-१२; -शो वृजा ३, ७.
पालाश- -शम् आठ ५; शि ७,
९, १.
पालाशो(श-उ)दुम्बरा(र-अ)-
क्षय-पृषदाज्य-तिल- -लैः शि
२, २३.
पालाश-कदली-पद्म-पत्र- -त्राणि
शि ६, ४५.

पालाश(श-अ)ङ्कुर-
पालाशाङ्कुर-ज-
पालाशाङ्कुरजा(ज-आ)शिट-
पाला(ल<ण)ली- -त्यः शि
४, ४०.
पालाशाङ्कुर-संख्या- -ख्यानाम्
शि ४, ४१.
पालाशो(श-इ)न्धन-ज- -जे शि ४,
४७.
पलित^{२१}- -तः मन्त्रि ११?; चू ११;
-तम् १योत १२५.
पलित(त-आ)दि- -दि जाद ६, १९.
पली(लि<रि/इ), पल्ययते वृ ४, ३,
२-६.
पल्लव^{२२}- -वैः सार २३७:१३.
पल्लव-क्रोणा(ण-अ)म-लम्बा-
(म्ब-अ)म्बु-कण-भङ्कुर- -रम्
महा ३, ९.
पल्लवा(व-आ)दि- -दिवु सां ५,
३५.
पयन-, पवमान-, पवि-, पवित्र-
√पृ द.
√पशु^{२३}, पश्यते सुं ३, १, ३; ८; त्रिवि
१९; अना ३०; अवि १९?;
पश्यति के १, ६?; क १, २,
२०९?; २, १, १, १०; ११; ३,
९; प्र ४, १; ३; ५?; ६; मां ५;
ऐ ५, १; छां १, २, ४; ५, २, ८;
१२-१७, २; ७, २४, १?; २६, २?;
वृ १, ३, ४?; ५, ३; २, ४, १४; ३,
२, ५; ९, २०; ४, ३, ९?; १४?;
१५; १६; १९; २०; २३?; ४, २;
१९; २३?; ५, १५; ५, ५, २; थे
३, १९; २०?; ४, ७; १२?;

a) तैश्चा १०, ३०, १। b) °देवाल इति श्रव्या.। c) बभ्रा. वैपश् यद्र.। d) =पारवर्षिय-। वैपश् यद्र.। e) पावा ४, २, ४२। f) तु. सत्य. टि. खरूच°। g) तैश्च. परिपद-?। h) =परिवन-। i) म्यु.। मांस-। j) 'फलम्' इति निशा. यनि. शोधः द्र. (तु. श्रव्या., तापिन्.)। k) म्यु.। परिमाणविशेष-। l) म्यु.। फलपरिमाणविशेष-। m) म्यु.। =पल-। n) म्यु.। =मुचदक-। o) म्यु.। =धान्यरहितकार-। p) 'फलितः' इति निशा. श्रव्या. च यनि. शोधः द्र. (तु. श्रान.)। q) √पशु इत्यस्य आदेशः (पा ७, ३, ७८)। वैपश् यद्र.। r) 'पश्यति' इति श्रान. मंदि.। s) तैश्चा १०, १०, १। t) 'पश्यत' इति तैश्चा १०, १०, ३।

२०५^०; गौ २, २; कौ २, १३^१;
मना २, १२, ३५^०; १संन्या १, १^०;
वरा २, ६९^१; वृ १, ९; ३,
१५; ४०; ५, ३५; पश्यन्ति सुं
३, १, ५; वृ १, ४, ७; ४, ३, १४;
गौ १, १४; मैत्रि ७, १०; आर
५५^०; वृना ८, ६५^०; वृपू ५,
२१५^०; वृउ ९, १६; सुया ६५^०;
मन्त्रि २; पश्यसि क १, २, १४;
छां ५, १२-१७, २; ६, १२, १^१;
ते ५, ७३; पश्ययः छां ८, ८, १;
२; पश्यामि ई १६; छां ८, ९,
२^१; १०, २; ४; ११, १; २; वृ
५, १५, १५^०; कै २, २; गर्भे ४;
स्क ९; योशि ६, २०; अष्या
६७; म २, ७; आर्ये ७ : ११;
पश्यावः छां ८, ८, १; पश्यामः
मै १, ४; ६; मैत्रि १, ४^१; वृउ
९, १९^१; कौ ३, ३; पश्यन् मना
१, ३५^१; पश्य अना १५^१; महा
५, ५९; आर्ये ९ : ५; गौ
१, ३; पश्यत वृउ ९, ९; १७;
१८; नी १, २; अपश्यत् ऐ ३,
१२; वृ १, ४, १; मना १, ४५^१;
मै २, ६; मैत्रि २, ६; वृपू १, २;
महा ५, १६१; अव्य २^१; २प्र
३२ : ५; शौ ५१ : ५; अपश्यन्
सुं १, २, १; श्वे १, १; अशि १,
१२; नाप ९, २; छाग २४ : ८;
सार २३३ : ६; पित्र १, ४^१;
अपश्यम् नी १, १^१; २, १^१;
पश्येत् छां ५, २, ७; वृ २, ४,
१४; ४, ३, २३; ३१; ५, १५; ६,
४, ६; श्वे १, १४; ५, २; ते १,
२९; ध्या २२; नाप ३, ६९;

त्रिमा २, २०; पै ४, ९; अष्या
१९; जाद ५, ६; पश्येः वृ ३,
४, २; महा २, ७३; पश्येम प्र सुं
मां दां^१; छां २, ४, ४; ८; १२;
१३; अशि अ अशि मृना दां^१;
पश्य- -श्यः सुं ३, १, ३; छां ७,
२६, २^१.
पश्य-क- -कः सूता १, ७.
पश्यत्- -श्यत् कौ २, १४^१; ३,
२; -श्यतः छां ७, २६, १; महा
५, ६३; अल १, २८; शि ७,
१९; गौ २, ६९; -श्यसुं सुं
३, १, ७; -श्यन् क २, १, १४;
छां ७, १५, ४; २५, ३; ८, १२,
५; वृ १, ४, ७; १०; २, ५,
१६-१९; ४, ३, १३; २३; मैत्रि ६,
१८; ३५; ७, ११^१; मन्त्रि १;
नाप ३, ५३; ४, २२; ५, ३८; ७;
त्रिमा २, १५९; मं २, ४, ६; शां
१, ५; ७, १५; महा २, ७३;
योशि ३, १४; तुभ १३; अशि
२^१; कुं २७; पाशु २, २४; ४६;
१अव २०; म २, २१; ३०; जाद
७, २; वरा २, १४; १५; १७;
२८; सौ ३, १^०; सार २, १५^०;
आर्ये ८ : १९; ९; ६; गुष्ठ ३; व
४३७ : ७५^०; चू १५^०; गौ ५, ८;
६, २०; १३, २८; -श्यन्तः छां
३, १७, ७^१; ५, १, ८; वृ ६, १,
८; १०-१२; वृउ ६, ३; इ १२ : ७;
सार २४६ : १४; २८३ : १२;
चू १६; पित्र १, ३; -श्यन्तम् वृ
४, १, ४; रार २, २४.
१पश्यन्ती-
२पश्यन्ती^{१०}- -न्ती

नाप ८, १; वृ ११; -न्तीम् योशि
३, ३; -न्याम् पप ४२० : १;
यो ३, १८.
पश्यन्ती-रूप(७)-
पा- -०पे अल १५.
पश्यतः
पश्यतो-हर^{१०}- -रः स्व ६१;
९; -रैः स्व ६१ : ८.
पश्यमान- -नः मं ३, १, ३; -नम्
पा १, ८.
पश्याय- -नात्. द.
१पश्य^{१०}- -शवः सुं २, १, ७; तै २, ३,
१; छां २, ६, २; ९, २; ७, ८, १;
१०, १; वृ १, ४, १०; ५, २;
३, ९, ६; ४, ५, ६^१; मैत्रि ६, १०;
गर्भे ५; अशि ५, ७; वृपू १, ८;
नाप ९, १; यिता ५, १; दे ५५^१;
म २, १४; जामा ९-११; १३;
मार २, ८५^१; इ ११ : २२; शि १,
१०; गु ३०; -श्वः वृ १, ४, १०;
१७; मना २, ८०^१; मै ४, २;
पप ४१९ : ७^१; प्रा ३, १; ४,
१; जामा २; ८; सु २९४ : ११;
शि १, १४; -शुभिः तै १, ३, ४; ४;
२; ६-९, १; छां २, ११-२०, २;
५, १७, १; १९-२३, २; वृ २, १,
५; ६, १, ६^१; ४, २४; कौ २, ८;
९^१; ४, ६; १४; तै १, ४३; २शि
२३; व ४६६ : १२; -श्वन्म्यः
छां २, २२, ३; वृ १, ४, १६; ५;
१; २; -शुषु तै ३, १०, ३; छां
२, ६, १, २; १८, १, २; -श्वत् क
१, १, २३; छां २, १५, २; १९;
२; ७, २, १; ३, १; ७, १; १३, १;
१४, १; वृ १, २, ७; ७; ४, १, १;

a) 'पश्यत' इति तैश्चा १०, १०, ३। b) 'व्युत्पिच्छति' इति अश्या। c) पा. १ 'नश्यति' इत्येवं शोधः द्र. (तु. अश्या.)।
d) श्र १, २२, २०। e) काष्ठ ०, १, १६। f) 'श्यन्' इति पा. १ यनि. शोधः द्र. (तु. मा ३२, ८)। g) मा ३२, १२। h) 'अपश्यत्'
इति सुपा. यनि. शोधः द्र.। i) 'अदश्यम्' इति आन.। j) श्र १, ८९, ८। k) पा ३, १, १३। l) 'पश्य' इति अश्या.।
m) 'परश्वन्म्य' इति अश्या.। n) श्र १०, ७१, ४। o) श्र १, ३५, २। p) श्र १, ५०, १०; मा २०, २१। q) = वाक्शोध-
१। r) पावा ६, ३, २१। s) वैप १ यद.। t) श्र ८, १००, ११। u) तैश्चा १०, ६४, १। v) 'शुचिः' इति अश्या.।

मना १, १५^०; ५५^०; सुभा २; सू
३१; व ४६२: १९; वर ३, २३;
-द्वानाम् वृ १, ४, १६; ४, ५, ६;
मैत्रि ६, १३; नाद १५; सी
१३; ए ५; -सी वृ १, ४, १०.
पशाम्य-भ्यः इ १०: १३; -भ्यम्
छां २, २२, १.
२पशु- -शु (शुम्^०) वपं ३१२: ४.
पशु-कुक्कुट-कीटा(ट-आ)य- -घाः
योशि १, १६१.
पशु-ता- -ताम् श १२.
पशु-धन-धान्य- -न्वम् कालि
४०२: १५.
पशु-पक्षिन्- -क्षिणः सार २७८:
११.
पशुपक्षि-गण- -णाः सार २२१:
२२.
पशुपक्ष्या(क्षि-आ)य- -घाः कर्
१६.
पशु-पक्षि-सृग-कीटक-लिङ्ग-
धारण- -णम् लि ३०९: ३.
पशु-यति- -तये मना २, २२५^०;
६५५^०; म १, ६; स ४; -तिः
तृपु १, १२; श १२; पाशु १,
१११^१; २९; ३२; २, ७; ११;
जावा ८-१०; १३.
पाशुपत- -तम् अशि ५, २२५^०;
सु १, १, ३०५^०; वट ३१७:
१२५^०; -ताः म २, २८; -तेन
लां २१३: १२५^०; वपं ३१२:
८५^०.
पाशुपता(ति-आ)य-
पाशुपताय-भ्रह्माय-वैल-
(वैष्णव^०)वाय-नारायणाय-काल-
शाक्तिकाय-दण्डकाय-पाशा-
(श-आ)घोराय-निवारण- --०ण

लां २१४: ९.
पाशुपताय-भ्रह्माय-वैल-
(वैष्णव^०)वाय-नारायणाय-सृट-
-०८ लां २१४: १०.
पशु-पाल-
पाशुपालय- -क्ये शि ७, ११९.
पशु-पादा- -शात् सिशि ३८२:
१७.
पशुपादा-पर- -रः शि १, १६.
पशुपादा-विमोक्षण- -णम्
अशि ५, ९; -णाय अशि ५, २२;
वट ३१७: १३.
पशुपादा-विमोचक- -कः म २,
१४; -कम् म २, ३.
पशु-पुत्रा(त्र-आ)दिक- -कम् सु
२९४: ९.
पशु-बन्ध- -न्धाः मना २, ८०५^०.
पशु-भाषण- -णम् लि ३१०: ४;
२कौल ६.
पशु-मत्- -मान् छां २, ६, २; १८, २.
पशु-स्लेच्छा(च्छ-आ)दि- -दयः
महा ५, ३९.
पशु-रोमन्- -माणि इ १३: ८.
पशु-वत् सांस् ३, ७२; कृपु १९१^०.
पशु-संभाषण- -णम् १कौल ५: १.
पशु-हर्ष- -र्ता पाशु १, २२९.
पश्चा(शु-आ)दि- -दयः नि ७;
२१.
पश्चादि-स्थावर- -रे वरा ३,
१६.
पश्चा(शु-आ)य- -घाः सुद्र २.
पश्चात्^० सुं २, २, ११; छां ३, ६, ४;
वृ १, १, २; मैत्रि ६, ११; कौ २,
८; अना २२; वृजा ४, १०; तृपु
५, ८; ते ४, १९; महा ५, १०४.
पाश्चात्य^० - -स्वम् महा ६, १५.

पश्चात्-त्^० सू २३५^०; ग ४.
पश्चात्-मुख- -त्वम् शि ४, ५.
पश्चिम, मा^० - -मम् घ्या ७६; त्रि
८०; त्रिना २, ५१; योचू ४९;
योशि १, १४५; ६, ३१; यो
१, ४९; -मा गार ४०६: ७;
१५; -मायाम् म २, १८; गार
४०६: १२; -मे नाप ६, १; रापु
४, ३३; योशि १, १३२; ६, ३०;
वरा ५, २५; सूता ४, ४; राधा
१, १९; २, ३; ३, २; शि ४, १८;
६, ७४; ७८; ८४.
पश्चिम-तत्(>) वरा ५, ७३;
सार २७२: १२.
पश्चिम-तान^० - -नेन शां १, ७,
१२; योशि १, ११२; यो १,
५२.
पश्चिम-दल- -लम् ध्या २३, ६;
-ले ध्या २३: ६; वि ९.
पश्चिम-द्वार-मार्ग- -र्गेण योशि
१, १४२.
पश्चिम-द्वार-लक्षण- -णम्
योशि १, १२१.
पश्चिम-मार्ग-
पश्चिममार्ग-तत्(>) योशि
१, १२२.
पश्चिम-लिङ्ग- -ङ्गाः निर्वा
२९७: २.
पश्चिमा(म-अ)भिमुख- -खः
महा १, १; -त्वम् ध्या ४५; योचू
८; सौ ३, १^०; योरा ८.
पश्चिमाभिमुख-प्रकाश- -शाः
मं २, २, १.
पश्चिमा-मुख- -त्वः च २०: ५.
पश्चिमा(म-अ)घ्राय- -यः म
४८: ७.

a) तैश्चा १०, १, १। b) तैश्चा १०, १, ५। c) =बीजमन्त्रविशेष-। d) पा? यनि. शोधः द्र.। e) समाहारे
द्रस.। f) द्रस. > पन.। g) तैश्चा १०, १, १। h) तैश्चा १०, ६, ७। i) 'पशु-कर्ष- > -र्ता' इति मुद्रा. (द्र. उत्र.)
यनि. सु-शोधः (तु. नि.सा.)। j) =अन्नविशेष-। k) =तदाख्योपनिषद्विशेष-। l) उप. कर्तरी कृत.। m) तैश्चा १०, ६, १।
n) पा.वा. च?। o) वैश्व यद्र.। p) पा ४, २, ९८। q) श्र १०, ३६, १४। r) पावा ४, ३, २२। s) °मुख्यम् इति अन्वा.।

√पा(पाने) > पिब^१, पायि, पिपास,
पेपीय^२, पिबते मन्त्रि ६; चू ६;
पिबति छां १,२,९; ३, १७,२; ५,
२,७; मना २, ८०^३; सार २२८:
११; पिबन्ते चू ६^०; पिबन्ति छां
३, ६-१०, १; मन्त्रि ६; ११२: ७^१;
८; पिब छां ६, ७, १; मना १,
११^४; व ४५८: २०; पिपाय
व ४६०: १२^५; पिपाय छां १,
१२, ५; पिबेत् वृ ६, ४, १३; मैत्रि
२, ३; १योत १२८; योचू ९८;
स्क १२; शां १, ५; ७, १;
४५-४७; कर् १; भ १, ६; २,
२१^६; जाद ६, २५; २७; २९^७; भव
५, १०; कथु २, ३; आच ६^८; ७^९.
पपे श२; १^{१०}अपाम अशि ३, ३;
च २: १८; वटु ३१५: ३.
पिपासति छां ३, १७, १; ६, ८, ५.
पातस्य-स्य: २ प्र ३६: ६; ११.
पान-नम् कुं १२; कर् ३; सि ७,
८७; ९०; कथु ३, ३; नै: वृ ४,
३, ३७.
पान-येयक-कम् ते ६, १५^{१०}.
पान-वत्-वत: छां ७, ९, २.
पाना(न-आ)हार^१-रम् सि ६,
२२६.
पानीय-यम् वरा ५, १; योशि
१, ११७.
पायित-रम् वृ ४, १, २; ५, ११.
१पायु^{११}-सु: प्र ४, ८; वृ २, ४,
११; ४, ५, १२; सुवा ५; ६;
त्रिमा २, १३१; भव २, १८;
-युम् सुवा ९^१; -यो: नाप ६,
१; १योत ९१; योशि १, ८३;
-यी ते ३, १०, २; सुवा ५.

पायु-देना-नात् वरा ५, १९.
पायु-पर्यन्त-न्तम् १योत ८८;
जाद ४, १७.
पायु-मूल-स्वात् शां १, ४;
-लौ (ईलात्^१) त्रिमा २, ७३.
पायु(यु-उ)पस्य^१-स्वधे प्र ३, ५;
-स्वो शारी ७.
पाय्व(यु-अ)न्त-न्तम् जाद
८, ४^१.
पिपासा^१-सा मे ३, ५; मैत्रि
३, ५; वरा १, ९.
पिबत्-वत: छां ६, ७, १; त्रिमा
२, ११२; -वत् छां ५, १०, ९;
नाद ४२; शि ६, ३६; -वन्तो क
१, ३, १.
१पीत,वा-रम् छां १, १०, ३; ६,
८, ५; योशि ५, ३५; -ता: छां
६, ५, ३; गर्भ ४; निरु १, १७;
-ते ते ६, १६; रुजा १, १९.
पीता(त-अ)सित^१-रम् मे २,
७; मैत्रि २, ६.
पीतो(त-उ)द(क>)का-का:
क १, १, ३.
पीखा वृजा ४, ६; ते ६, ७४; त्रि
२२; २योत १, ३; नाप ६, ३१;
योचू ९८; शां १, ७, १; महा ६,
५; योशि १, ७६^०; भ २, २०.
पीयसा(न>)ना-नानाम् छां ६,
६, ३; -नाम् मन्त्रि ७.
पेपीयमान-न: छां ६, ११, १.
√पा(रचणे), पाति ते ५, ८७; पा ८, २;
वृ ३, ५४; पातु मना २, ४७^{१०};
दे १०; सर २, १-१०; पाहि
श्वे ४, २१; मना २, ६५^{१०}; ७^{१०};
७५^{१०}; वृ ३, ४; स १२९; व

४३४: ३; ४६०: २५^१; वपू
२, २५^१; पाहि-पाहि ग ४; चा
४; वृ ३, ५२.
पातु-ता वृ ३, ३४.
पाल-
√पालि^१, पालयति श २२;
गोउ १५; पालय व ४६६: ९;
वृ ४, ४६; पालय-पालय व
४२८: ८; ४५९: ९; अपालयत्
पै १, २७; पालयेत् ५, ५३.
पालयिष्यमि पा २, ९.
पाल्यते शि ७, १०८.
पालक-क: महा ५, ८०;
-का: भ २, २८.
पालन-नात् महा ५, ८०;
-नाय पा २, ३; १०; -ने शु ७२;
भव १, २८.
पालयत्-वत् पा ३, १.
पालित-त: शां १, ४^१;
-तानि स २०.
२पायु^१-^{११}सु: व ४४२: ९; ४४७:
१५; ४५२: २; ४५५: ७.
१पांसि गपू. वृ ४११७ द.
पांसु^१-सुना नाप ५, १३; -सुम् महा
३, २८.
पांसु-पाद-रम् शि ६, १९६.
पांसु-भोजन-ना: इ १३: २०.
पांसु-र^१-^{११}रे ३, नाप ४; व
४४३: १६; ४४९: २; ४५३: २.
पाक-√पक् द.
पालण्ड^१-
पालण्डम्-ण्डी भव १, ३४.
पालण्डो(ण्ड-उ)पहत-ता: भव
१, ५६.
पाङ्क्त-पङ्क्ति-द.

a) पा ७, ३, ७८। b) तैआ १०, ६४, १। c) 'पिबन्ति' इति आन. संदि.। d) ऋ ३, ४७, २। e) ऋ १०, ८३, ७। f) 'पिबन्' इति अख्या.। g) ऋ ८, ४८, ३। h) 'मानयेयकम्' इति अख्या.। i) समाहारे दस.। j) =पुद-। वैप१ यद.। k) पा.१ यनि. शोच: द.। l) 'वंदा' इति अख्या. संदि.। m) पा ३, ३, १०२। n) 'भिरवा' इति आन.। o) तैआ ३, ७, ७, २। p) तैआ १०, ५, १। q) तैआ १०, ७५। r) ऋ १०, ८३, २। s) ऋ ६, १७, २। t) पावा ७, ३, ३७। u) 'पवितः' इति अख्या.। v) वैप१ यद.। w) ऋ १, ८९, ५। x) =धूलि-। वैप१ यद.। y) ऋ १, २२, १७। z) व्यु.१।

पाचयित्वा, पाचित्-, पाच्य-
 √पच् द्र.
 पाजस्^१- -ञः मना २, २७^१; व ४६०:
 १८^१.
 पाजस्य^२- -स्यम् वृ १, १, १.
 पाञ्चजन्य- १पञ्चजन- द्र.
 पाञ्चद्वह्वात्मिकी-, पाञ्चभौतिक-
 पञ्च- द्र.
 पाटल^३-
 पाटल-कुसुम- -मैः रा ४२३: १८.
 पाणि^४- -णिः वृ ४, ३, ५; १संन्या
 २, ७७; -णिना वृ २, १, १५; ५,
 १२, १; ६, ४, ७; मना १, १३^१;
 कौ २, १५; क्षि ५, ३३; ३६; ६,
 १६३; व ४३४: २१; -णिभिः
 मना २, १२, ३^१; -णिभ्याम्
 त्रिधा २, ४३; शां १, २, ८; जाद
 ३, ७; शि ७, ५३; -णिम् शि
 ५, ४९; -णी वृ ६, ३, ६; ४, १९;
 कुं १८; त्रिता ३, ६; -णोः नाप
 ६, १; -णौ वृ २, १, १५; कौ ४,
 १८; कृ २४; शि ६, ४; ७, ५७.
 पाणि-तल-द्वन्द्व- -द्वम् जाद ३,
 १०.
 पाणि-द्वय- -येन शि ७, २१.
 १पाणि-पात्र^५- -त्रम् आह ५; -त्रेण
 १संन्या १, १; कधु १, १.
 २पाणि-पात्र^६- -त्रः नाप ५, ९;
 १संन्या २, ७७.
 पाणि-पाद- -दाभ्याम् २द्योत २,
 ३; -दौ आच १.
 पाणिपाद-चपल- -लः या २, १८
 पाणिपाद-मय- -यम् महा ५,
 १२६.

पाणिपादा(द-आ)दि-मात्र-
 -त्रः महा ५, ९२.
 पाणिपादा(द-आ)घ(दि-अ)-
 संयुत- -तम् भव ३, ३.
 पाणिपादा(द-अन्त<)-न्ता-
 -न्ता सु ४८.
 पाणि-पाद-वाक्-चक्षुः- -ध्रोय-दिभ-
 गुदो(द-उ)द^७- -रेः शि ७, ५८.
 पाणि-मन्त्र- -ऽ^८मन्त्रमना २, १६;
 लिं ३०९: ५.
 पाण्य(णि-अ)धिष्ठित- -तः त्रिधा
 १, ९.
 पाण्या(णि-आ)दि- -दिना नाप
 ५, १^१.
 १पाण्डुर^९- -रः गर्भ २०.
 २पाण्डुर^{१०}- -रः घ्या ८६; योचू
 ६०; -रम् घ्या ८७; योचू ६०.
 पाण्डुर-गगन- -नम् निर्वा
 २९८: ५^१.
 पाण्डुर-वासस- -सः वृ २, १,
 १५; कौ ४, १८; -साः वृ २, १,
 ३; कौ ४, २१.
 पाण्डित्य- पण्डित- द्र.
 १पाण्डुर^{११}- -ण्डु वृ २, ३, ६.
 २पाण्डुर^{१२}-
 पाण्डव- -व गी ४, ३५; ६,
 २; ११, ५५; १४, २२; १६, ५;
 -वाः गी १, १४; २०; ११, १३; -वाः
 गी १, १; -वानाम् गी १०, ३७.
 पाण्डवा(व-अ)नीक- -कम्
 गी १, २.
 पाण्डु-पुत्र- -त्राणाम् गी १, ३.
 १पाण्डुर^{१३}-
 २पाण्डुर^{१४}- -रम् (१:२) इ १९: १५;
 -राः वरा ५, ४^१.

पात- √पत्(गती) द्र.
 पातक^१- -कम् योचू १०९; योशि ६,
 ६१; गी १, ३८; -क्वात् शि ६,
 २२१; -कानि नाप ३, ७१; जाद
 ६, ४५; -केभ्यः त्रिवि ८, १९;
 मृ ६; -कैः योशि ६, ६१; शि ७,
 ९९.
 पातक-नाशि(व्<)-नी- -नी घ्या
 ९३^१.
 पातकिन्- -की नाप ३, २.
 पातके(क-ड)न्धन-पाचक- -कः
 योचू १०८.
 पातकौ(क-अ)घ- -घात् सिशि
 ३८१: २०.
 पातकौघ-गिरि- -रेः सिशि
 ३८१: १६.
 पातञ्जल- पतञ्जलि- द्र.
 पातयत्- √पत्(गती) द्र.
 पाताल^१- -लम् ते ६, २०; महा ३,
 २४; म २, १९; राधा १, ४; यु
 १९; व ४३६: १२; व ३,
 २३; -लानाम् योशि ५, २९;
 -ले अत्र २, २३; व ४३०: १९.
 पाताल-गमन- -नम् योशि ५, ४९.
 पाताल-गारुड- -हनुमद्- -भते लां
 २१३: ८; २१५: १२.
 पाताल-जङ्घ^२- -कम् व ४, ३८.
 पाताल-दिश- -दिशम् व ४२९: २.
 पाताल-द्वार- -रम् व ४२८: २.
 पाताल-वासिन्^३- -सी व ४४८: ७.
 पातालवासिनी^४- -नि व
 ४५२: १३.
 पातित-, पातित्य- √पत्(गती) द्र.
 पाठ- √पा (रक्षणे) द्र.

a) =चल- । वैप१ यद्र । b) तैश्चा १०, २०, १ । c) श्य १०, ८४, ३ । d) वैप१ यद्र । e) व्युः ?
 f) =हस्त- । वैप१ यद्र । g) तैश्चा १०, १, १३ । h) 'पणिभिः' इति श्य ४८, ४; J.C. । i) कस । j) वस ।
 k) तैश्चा १०, १६ । l) प्राण्या इति अच्चा. संदि. । m) व्युः ? =वर्षविशेष- । n) 'पाण्डुरः' इति आन ।
 o) =वर्षविशेषवत्- । p) अच्चा. 'ममहा' इत्युत्तरेण स. वनि. शोधः द्र. (उ. नि.सा.) । q) 'वासिधि' इति अच्चा. ?
 'ण्डु' इति J.C. । r) व्युः ? =वृषविशेष- । s) पा. १ वनि. शोधः द्र. । t) 'ण्ड' इति अच्चा. । u) व्युः ? =१पाप- ।
 v) 'तनी' इति अच्चा. संदि. । w) =राक्षसविशेष- । x) =देवीविशेष- ।

पात्र- -अम् जा द; आर २; ते द,
१५०; नाप ३,८६; १संन्या २,
७७; कुं १३; इ १४: ३; ४;
-प्राणाम् इ १४: ४; शि द,
२६३; २६४; -प्राणि शि द,
२६२; वड द, १२; २१; -त्रे
वृजा ३,७; ८; म १,४; शि ७,
२०, गी १७,२०; -त्रेण ई १५;
वृ ५, १५, १९; मैत्रि द, ३५९;
-त्रै: १संन्या १, १; कथु १, १.
पात्री- -त्रीम् शि द, ५६; १६१;
१६२.

पात्र-दग्डा(राड-अ)क्षसूत्र¹¹¹- -अम्
शि ७, १२.

पात्र-भूत- -त: कालि ४०२: ७.

पात्र-लोप- -य: १संन्या २, ७५,
८१.

पात्रा(त्र-अ)तिरिक्त- -क्तानि वड
द, १३.

पात्रा(त्र-अ)न्तर-द्वय- -न्य: या
२, १.

पात्रा(त्र-अ)सादन- -नम् वडद, ८.

पात्रिन्- -त्री शा १८

पाथेय- √पथ् द.

पाद्-, पाद-, पादित्-, पादुका-,
पाद्य- √पद् द.

पान-, पानीय- √पा(पाने) द.

१पाप- -पम् प्र ३, ७; तै २, ९, १;
छां १, २, ८; ४, १४, ३; ८, १३,
१; वृ १, ५, २०; ४, ३, १५-१७;
३४; ४, २२; ५, १४, ८; कै १,
११; आर ३९; मा ५; मना
१, ७४; ८९; २, ३९; ३२९;
३४; ९; ६४; ७९; ७९; की २,
७; ३, १; वृजा ३, ३४; ४, ३९;

३३; ३४; ३५; सुभा ११; तै
२, ३३; ४, १४; ध्या १; नाप
४, ३८; मित्रा २, १४९; अता
१९; राउ ५, १२; १४; १९;
२१; पप १८: ३१; अक्ष १६;
दे २२; म १, ३; रुजा १, ४;
३, १; ग १६; मवा १२; इ १०:
१६; १७; सूता २, १३९; गोच
६७: १९; य ७; सं २१; शि
७, ५९; सिसि ३८३: १३;
गार ४०८: १४; १५; गा २८;
व ४५९: ११; ४६४: ४९; गी
१, ३६; ४५; २, ३३; ३८; ३, ३६;
५, १५; ७, २८; -पात् मना १,
१५९; योशि १, ४९; ६, ३०;
अक्षि द; म १, ११; इ १८:
२२; गी १, ३९; -पात् (१नि)
जा २; राउ ३, १; -पालाम्
१योत ६३; १संन्या २, १०३;
तुल ७१: ११; -पानि ध्या १७;
वरा ५, ६८; गोच ६८: २; सिसि
३८०: १२; ३८२: ९; गार ४०८:
१५; -पे हं ८; जाद ६, ४६; -पेन
प्र ३, ७; वृ ३, २, १३; ४, ३, २२;
४, ५; मैत्रि द, ९; मना १, ९९;
सुभा ११; वोच् ८८; अक्ष ५,
९७; गी ५, १०; -पेभ्य: मना २,
३९; ३२९; त्रिवि ८, १९;
रार १, ९; सुभ ४; -पै: ध्या ६४;
योशि द, २५; दे २१; शि ४,
५५; सिसि ३८१: ५; ३८३: १४.
२पाप- -प वृजा ६, १; -प: वृ ३,
२, १३; ४, ५, ५; ना ५; अक्ष
१६; दे २२; मवा १२; इ १०:
१७; -पा: महा ३, ४; भव १,

२६; गी ३, १३; -पात् इ १०:
१८; सूता १, ८; -पेभ्य: मना १,
१२९; गी ४, ३६; -पेषु गी ६, ९.
पापिष्ठ-

पापिष्ठ-तर- -रम् छां ५, १, ७.

पापीयस्- -य: वृ ६, १, ७;

-यांसम् पा ६, ३; -यात् छां ४,

१६, ३; वृ १, ४, ११; ग १७;

आपं ८: ४; १९; ९: ८.

पाप-क- -कम् नाप ३, २२; -केन

वृ ४, ४, २३; इ १२: १४.

पाप-कर्मन्-

पापकर्म-हिसा-मति- -ति:

ध्या ९३, ५.

पाप-कर्मण- -ण: गोप् ५.

पाप-कलिल- -लम् शि २, ३१.

पाप-कारिन्- -रिणम् म २, ३०;

-री वृ ४, ४, ५.

पाप-कृत-

पापकृत-तम- -म: गी ४, ३६.

पाप-कृत्या- -र्याम् छां ४,

११-१३, ३.

पाप-कोटि-दश- -शै: नाद ६.

पाप-घातक- -का: म २, २८.

पाप-अ, प्रा- -० अ वा द; गोच ६६:

४; -अम् यो १, ३८; गोच ६९:

१; शि ५, ११; -० अ ऊ ३: १३.

पाप-नाशन- -नम् ध्या ३२; १योत

१३९.

पाप-नाशि(न् >)नी- -नीम् तुल

७०: ५.

पाप-नुद्- -नुदम् के द, ६.

पाप-नु(द)दा- -दाम् सु ६५.

पाप-पुण्य- -पुण्यम् सार २४७: १६.

२०; -पयानि सार २८७: १६.

a) यमा. वैपश् यद. । b) 'मात्' इति अख्या. । c) मा ४०, १७ । d) समाहारे द्वस. । e) =पातक- ।
वैपश् यद. । f) 'पादम्' इति आन. । g) आपमं २, ५, ५ । h) तैश्चा १०, १, ७ । i) तैश्चा १०, १, ८ । j) तैश्चा १०,
२४, १ । k) तैश्चा १०, २५, १ । l) तैश्चाश्चा १०, ३४ । m) तैश्चाश्चा १०, ६४ । n) तैश्चा १०, ६३, १ । o) तैश्चा ३,
७, ६, २२ । p) अ १०, १, ७ । q) तैश्चा १०, १, १५ । r) पा? यनि. शोच: द. (द्र. अख्या.) । s) तैश्चा १०, १, ९ ।
t) मत्वर्षीय: भच् प्र. (पा ५, २, १२७) । m) तैश्चा १०, १, १२ ।

पापपुण्य-लोक(क-अ)नुभव-
 श्रवण-ग्नात् नाप५, १^०; १संन्या
 २, १३.
 पाप-पूर्ण-गैस्य सिरि ३८१ : १.
 पाप-प्रणाप्त-शाय गोपु ४१.
 पाप-फल-नरका(क-आ)दि-दि
 मं २, ४, २.
 पाप-बुद्धि-द्विः नाप ६, १; वा ३७.
 पाप-भाज-भाजः इ १० : १८.
 पाप-मन्दिर-रम् मैत्रे २, ५.
 पाप-मल-निमुक्त-क्तः शि ६,
 २५६.
 पाप-मुक्त-क्तः शि १, २२.
 पाप-युक्त-क्तः शि ६, १९४.
 पाप-योनि-नयः गी ९, १२.
 पाप-रोग-
 पापरोग-महाह्वयाधि-नाश-
 शः त्रिशा २, १०६.
 पाप-विनिमुक्त-क्ताः शि ४, ५६.
 पाप-विवर्जित-तः शि ६, १३२
 पाप-संहरण-गाल् गोच ६७ : ९.
 पाप-सम-मम् सु २९३ : १३.
 पाप-हर-०र लां २१६ : १५.
 पाप-हारि(नि>)णी-०णि सुल
 ७१ : ६.
 पाप-हेतु-भव-वानि भव १, ६.
 पापा(प-अ)पहानि-निः जाद ६,
 ४७^b.
 पापिन्-पिनः अव्य ७.
 पापिष्ठ-पापीयस-१पाप-द्र.
 पाप्मन्-प्मनः तै २, ५, १; वृ १,
 ३, १०; ४, १; ५, २; ६, ३, ८; ९;
 ५, ७, १; -प्मना प्र ५, ५; छां १,
 २, २^१-६^१; ५, १०, १०; वृ १, ३,
 २-५; ६^१; ७; मै ४, २; मैत्रि ४,
 २; -प्मनिः वृ १, ३, ६; ४, ३,
 ८; -प्मन्यः छां १, ६, ७^१; वृ

२, १; सं १९; -प्मा छां ८, ६,
 ३; वृ १, ३, २^१-६^१; ५, २३; ४,
 ४, २३^१; वृ ६, १^१; २; -प्मानः
 छां ५, २४, ३; ८, ४, १; -प्मानम्
 के ४, ९; सुं ३, २, ९; वृ १, ३,
 १०^१; ११; ४, ४, २३^१; ५, ५, ३;
 ४; मना १, ११९^०; २, ६६९^०;
 त्रिवि ७, ४९^०; कौ २, ७^१; वृजा
 ८, ३; वृपू २, १^१; ५, १३; वृ ७,
 १; राउ १, १; शां १, ७, ५२;
 सु २९३ : १५९^०; कालि ४०१ :
 १३; ४०२ : १८; विवा १; वपु
 २, २; गी ३, ४१.
 पामन्^१-मानम् छां ४, १, ८.
 पामर^१-राणाम् समा १, ४१.
 पायस-ययत्-द्र.
 पायित-√पा (पाने) द्र.
 १पायु-√पा(पाने) द्र.
 २पायु-√पा(रक्षणे) द्र.
 पार-√पृ द्र.
 पारतन्व्य-पर-द्र.
 पारमधाराणि^१ कृपु १७.
 पारमात्मिक-पारमार्थिक-पारमे-
 श्वरी-पारमैकान्य-परम-द्र.
 पारंपर्य-पर-द्र.
 पारयिष्णु-√पृ द्र.
 पारलौकिक-पारवश्य-पारहंस्य-
 पर-द्र.
 पारायण-√पृ द्र.
 पारावत^१-
 पारावत-फल-क्लेशु शि ६, १२.
 पारावार-√पृ द्र.
 पारादारी-पाराशर्य-पाराशर्या-
 यण-पराहार-द्र.
 पारिक्षित-परि/क्षि (निवासे) द्र.
 पारिजात^१-
 पारिजात-क^१-
 पारिजातक-वन्^१-नानि सार

२३३ : १५.
 पारिजातक-पृक्ष^१-श्राः सार
 २२६ : ४; ५.
 पारिजात-पुण्य-पैः रा ४२५ : ७.
 पारिप्लव-परि/प्लु द्र.
 पारिवान्य-परि/वन् द्र.
 पारुण्य-परुप-द्र.
 पारोक्ष्य-परस्^१ द्र.
 पार्थ-पर्य-द्र.
 पार्थ-रघुपा-द्र.
 पार्थिव-पृथिवी-द्र.
 पार्थिव-पर्व-द्र.
 पार्थिव(त>)ती^१-०ति अक्ष १, ११;
 गु २५; -ती नापु २, ९; -तीम्
 शि ६, १२३; -न्या हं २.
 पार्वती(ती-ई)-श्राः व ४५८ :
 २२.
 पार्श्व-पशु-द्र.
 २पार्श्व^१-श्वयोः वृजा ६, १२; वृपू ५,
 ८; शां १, ३, ८; ७, ४९; महा ५,
 १५६; योशि १, ९३; त्रिता ३,
 ११; जाद ३, ७; -श्वत् सार
 २२० : ५; -श्वं सार ३, १; रुद्र
 ४; भ १, ६; राधा १, १८; व
 ४६५ : १६.
 पार्श्व-ग(त>)ग-ताम् सार २, २४.
 पार्श्व-द्वय-स्थिता(त-अ)निक-
 पुण्य-लोक-कान् त्रिवि ५, १२.
 पार्श्व-पाद-द्वौ जाद ३, ७.
 पार्श्व-स्थ-पञ्चा(ध-अ)न(न>)ना-
 नाम् व ४२७ : १४.
 पार्श्व-स्थ-बोधित-ताः महा ५,
 ३८.
 पार्श्व(श्व-अ)घः-स्थित-काम-
 धेनु-नुम् वपु २, २.
 पार्थिव^१-रिः वृ १३; -रिम् १ योत
 ११२; -रिण्यो योशि १, १०४.

a) पुण्यलो^० इति श्रव्या. । b) पाशा^० इति श्रव्या. । c) वैपरी यद्र. । d) तैत्रा ३, १२, ३, ४ ।
 e) तैत्राशा १०, ६६ । f) =त्वग्रोवगविशेष- । वैपरी यद्र. । g) व्युः । h) पाः । i) व्युः =दृक्विशेष- । j) व्युः
 =दिव्यवृत्तविशेष- । k) व्युः =देवीविशेष- ।

पारिणि-घात- -नेन योचु ४६.
पारिणि-भाग- -गेन प्या ७५; १योत
१२०.

पाल-, √पालि, पालक- √पा
(रक्षणे) द्र.

पालयय^६- -वयम् शि ६, ८४.

पालन-, पालयम्- √पा(रक्षणे) द्र.

पालाश- पलाश- द्र.

पालित- √पा(रक्षणे) द्र.

पालिनिका^{१०}- -का नापु ५, २.

पाचक-, पावन-, पावमान-, पाव-
वित्वा √पू द्र.

पाश^१- -शाः भा २३; -शाम् क २,
१, २; लु २२^६; महा ४, १०७; ग
११; स ३७२; १८; -शाः मना
२, ५७९; शि १, ११; -शेन त्रि
१३; -शैः मै ४, २; मैत्रि ४, २.

पाश-च्छेद-दद-यत- -०त शु १, २.

पाश-जाल- -ल्यस्व शि १, १२.

पाश-पक्षर- -रात् शि १, १३.

पाश-पुस्तक-धारि(न>)णी- -णी
सर ३, ३^१.

पाश-बद्ध, छा- -द्धः स्क ७; नाउ
१, २१; -द्धा १संन्या २, २९.

पाश-बन्धन- -नैः शि १, १३.

पाश-मुक्त- -क्तः स्क ७; नाउ १, २१.

पाश-रहित- -तः शि १, १५.

पाश-रूप-

पाशरूपि(न>)णी- -णी आय
३९८: १२.

पाश-संयुक्त- -क्ताः शि १, १०.

१पाश-हस्त^६- -स्ताभ्याम् व
४५०: ३१.

२पाश-हस्त^६- -स्तः व ४५०: १६.

पाशा(श-अ)दुकुना-धनु-माण-
ध(र>)शा- -सा दे १०; -राम्
रार २, ३३.

पाशा(श-अ)दुकुना-ध(र>)शा-
-राम् दे १५.

पाशा(श-अ)दुकुना-मनोश-
पाणि-यल्ल(व>)या- -वाम्
त्रिता १, ८२.

पाशा(श-अ)दुकुना(श-अ)क्षमाला-
कमण्डलु-यर-ह(स्त>)-
स्ता- -स्ता गार ४०६: १७.

पाशा(श-अ)दुकुना(श-अ)श-
द्व्या- -द्वयाम् व ४२७: ४.

पाशिव^{११}- -शिनो मिति ३८२: २०.

पाशुपत- १पशु- द्र.

पाश्यात्य- पथात्^{१२} द्र.

१पापण्ड^१-

२पापण्ड^१- -ण्डः नाप ३, १; १संन्या
२, ३; -ण्डम् १संन्या २, ४४;
-ण्डात् सं १७.

पापण्डित्- -ण्डी नाप ३, ३.

पापाण^{१३}- -णेपु ध्या^{१४}; १योत १३७;
२योत १, ८.

पापाणक- -के जाद ४, ५७.

पापाण-प्रतिमा(मा-आ)दि- -दिपु
राउ ३, ५.

पापाण-लोह-मणि-मृद्-

पापाणलोहमणिमृद्-मय-
पापाणलोहमणिमृद्मय-
विम्रह- -हेषु मैत्रे २, २६.

पापाण-वत् अन्न ५, ११८.

√पिङ्ग, पिंशत् वृ ६, २, १९^{१५}.

पिङ्ग^{१०}-
पिङ्ग-युध- -यानि सार २३७: ९.

१पिङ्ग^{१०}-

२पिङ्ग^{१०}-

विङ्ग-नेत्र- -श्रम् तां २१३: १३.

विङ्गो(जा-उ)मै(मा-ए)क-ज-
(ट>)टा- -टा सारा ८३: १५.

३पिङ्ग^{१०}-

पिङ्गय^{१०}- -ङ्गयः वृ ६, ३, ९; कौ २,
२; -ङ्गयव वृ ६, ३, ८.

१पिङ्गल^{१०}-

२पिङ्गल^{१०}- -लः छां ८, ६, १; वृ ६,
४, १५; -लम् वृ ४, ४, ९; -लस्य
छां ८, ६, १; वृ ४, ३, २०; कौ ४, १९.
पिङ्गला(ल-अ)क्ष- -०क्ष तां
२१४: ६.

पिङ्गलो(ला-उ)मै(मा-ए)क-ज-
(ट>)टा- -टा सारा ८३: २०.

३पिङ्गल^{१०}-

पिङ्गल- -लः पं १-४, ११; -लम् मु
१, १, ३५^{१६}.

धपिङ्ग(ल>)ला^{१०}- -ल्या १योत
३८; ४२; योचु ९८; शां १, ५;
६; ७, १; जाद ४, ४७; ५, ८; ९;
६, ६; ७; २८; -लालु १६; ध्या
५२; ५५; त्रिमा २, ७०; ७१;
योचु १६; १८; शां १, ४^१; योशि
५, १८; ६, ६; मा १४; जाद ४,
७; १३; वरा ५, २४; सौ ३, १;
योरा १२; -लाम् १योत ३६;
-लावाः शां १, ४; जाद ४, २०;
३, ५; -लायाम् शा १, ४; योशि
५, १९; जाद ४, ४०-४२.

पिङ्गला-नाडी- -ध्या १योत ४२.

पिङ्गला(ला-अ)निल- -लम् त्रिमा
२, ९६; १७.

पिङ्गला-शृङ्ग-पूर्व- -चंयोः जाद ४,
१५.

a) व्यु. १ = शाकविशेष- । b) = ब्रह्मावतारीय-कलाविशेष- । पा. १ पलित-> ०लिङ्गी-> पालिक->
०क्रक-> ०क्रिका- इति कृत्वा शोधः स्यात् । c) वैप१ यद्र. । d) 'पाशात्' इति अच्चा. । e) तैमा ३, १०, ८, २ ।
f) 'शामस्त' इति अच्चा. संति. । g) मलो. कस. । h) वस. । i) = वरण- । j) व्यु. १ = पाखण्ड- ।
k) मत्वर्थीयः अच् प्र. (पा ५, २, १२७) । l) व्यु. १ । m) श्र १०, १८४, १ । n) = कोकिल- । वैप१ यद्र. ।
o) = वर्णविशेष- । वैप१ यद्र. । p) = वर्णविशेषवत्- । वैप१ यद्र. । q) व्यु. १ = योत्रप्रवर्तक-अपिविशेष- । r) पा ४,
१, १०५ । s) व्यु. १ = अष्टपिविशेष- । t) = तदाख्योपनिषद्विशेष- । u) व्यु. १ = नाडीविशेष- ।

५पिङ्ग(ल>)ला^१-

पिङ्गला-वत् सांस् ४, ११.

पिचएड^{११}- षडः पित्र १, १२.

पिठर^{११}-

पिठर-स्वनित्र-शिक्षया(क्य-आ)दि-

मात्र-साधन-पर-रः नाप

५, १^१; १संन्या २, १३.

√पिण्ड^१(वधा.)

पिण्ड- षडः मैत्रि ७, ११; गर्भ

३; त्रिमा २, ६; योशि १, ६४;

वरा ५, ५४; -षडम् १योट १०;

पै ४, ६; योशि १, ८; पिं २;

जादध, ५८; शि ६, १९८; पित्र १,

८; -षडस्य योशि १, १६२; -षडाः

त्रिमा २, ५; ६; -षडावलि ३०९;

५; १नौल ३: ३; -षडान् वृजा

३, १२; इ १३: ३; -षडानाम्

वृजा ३, १०; -षडे त्रिमा १, ४;

पित्र १, ८; -षडे-षडे पिं १७; -षडेन

पं २९; पिं ७-११; १३-१६.

पिण्ड-क-कान् वृजा ३, १३.

पिण्ड-दान-नेन पिं १७.

पिण्ड-पात-नेन योशि १,

१६२; १६३.

पिण्डपातिन्-तितः योशि

१, १२३.

पिण्ड-प्रदान-नामि नाप ४,

३८.

पिण्ड-ब्रह्माण्ड--षडयोः यो १,

८१.

पिण्ड-वर्जित-तः पै ४, ९.

पिण्ड-स्थ-स्थः पै ४, ९.

पिण्डा(षड-आ)ण्ड--षडम् अध्या

८; यो ३, २२.

पिण्डाण्ड शिरो-मध्य-स्था-

(६य-आ)काद-नो अता ९.

पिण्डी/कृ

पिण्डी-करण-णे गर्भ १.

पिण्डी-कृत्य वृजा ३, ३४.

पितृ--०तः सार २१९: २; -तरः

छां २, ९, ८; २१, १; ८, २, १; वृ

१, ५, ६^१; ३, ८, ९; ५, ८, १; मना

२, २८^१; ऋ २; अशि ५, १५;

मुद्ग ३; त्रिता ५, १; शा ३२;

अक्ष ६-८; इ १३: १; २; १२;

१४; १८; २०; १५; ९; १५; १६;

१६: २१; १७: ४; १८: १८:

२; ३; १९: ८; १०; निह १, १८;

सार २७८: १९; गौ १, ३४;

४२; -तरम् क १, १, ४; प्रं १,

११; तै ३, १-५, १; छां ५, १, ७;

७, १५, २; वृ ५, १२, १; ६, २,

२९^१; ३; बाह ५; मना २, ५२^१;

७९^१; कौ १, १; तै ३, १; नाप

३, ७७; ४, ३८; वा २^१; महा

२, १४; तुभ २; १संन्या १,

१; ५५ ४१८: ७; अय्य ७; इ

११: १६; सूता १, १; २, १;

२शिखं २८^१; कध्रु १, १; -तरि

वृ ५, २, १; -तरी या २, १५;

शि ७, ११०; -ना प्र २, ११;

६, ८; तै १, ३, ३; छा ३, ११,

४; ५; ५, ३, १; ६, १, १; २; ७,

१५, १; वृ १, ५, १; २^१; ७; ४,

१, २-७; ३, २२; ६, ३, ६^१; ४,

२८; मना १, ४^१; २, ३९^१; ऋ

२; कौ २, १५^१; युवा ४; ६; तै

२, १३; ६, १६; १योट १३३^१;

२योट १, ४^१; त्रिवि १, १; महा

५, ८०^१; र्ह ३; अद्वै २३; वा

५: १३; सूता २, ६; स्व ६२:

१; नौ ३, ४; शि ६, १६६; ७,

३८; १०९^१; व ४३७: १६^१;

अद्वैमा ८; गौ ९, १७; ११, ४३;

४४; १४, ४; -तु: छां ५, ३, ४;

गौ ४, १५; -गर्भ ३; मना १,

४^१;

महा २, १७; सार

२३०: ६; १९; २३२: १४; शि

६, १२७; -तुमि: इ १८: ४;

-तुभ्य: छां २, २२, २; वृ १, ४,

१६; मना २, ३^१; ४^१; ५^१;

८^१; ६७^१; २संन्या १५: ४;

इ १०: ९; १०; -तृणाम् वृजा

४, ३०; -तृणाम् प्र २, ८^१;

तै २, ८, ३^१; वृ १, ४, १६^१;

४, ३, ३३^१; ६, २, २^१;

मना २, ७९^१; ८०^१; इ

१०: ११; १२; १५: २३;

१६: ४; तुल ७१: १२; १४;

सार २७३: १७; शि ५, ५०;

५२; चू२०; गौ १०, २९; -तृन्

शा ३०; म२, ३०; इ १२: १७;

२०; १४: २; सार २३५: १;

गौ १, २६; ९, २५; -प्राकौ १,

२; शु ३, १६; महा २, २०; ३१;

३२; ३, १; अक्ष १, ८; शि ७,

१०६; -त्रे पा ६, ४-७; ७, ३;

१०, २.

पैतृक-कम् आच ४.

a) व्यु. ? = वेदयाविशेष- । b) व्यु. ? = उदर- । c) व्यु. ? = पात्रविशेष- । d) मन्त्र^० इति निसा. यनि.

शोधः द. (तु. अख्या.) । e) वैप १ यद. । f) तैत्रा १०, २१, १ । g) ऋ १०, ८८, १५ । h) ऋ १, ११४, ७ ।

i) तैत्रा १०, ६३, १ । j) ऋ १, ९०, ७ । k) मा ३२, १ । l) =पातक- । m) ऋ १, ६९, १ । n) मा ३२, ९ ।

'सवितुः' इति क्वाचित्के निसा. यनि. शोधः द. । o) तैत्रा १०, ३, १ । p) तैत्रा १०, २, १ । q) तैत्रा १०, ४, १ ।

r) तैत्रा १०, ६, १ । s) तैत्रा १०, ६७ । t) °तृणाम् इति ध्यान. यनि. शोधः द. (तु. निसा.) । u) °तृणाम् इति

ध्यान. यनि. शोधः द. (तु. ऋ १०, ८८, १५; निसा.) । v) °तृणाम् इति तैत्रा १०, ६३, १ । w) °तृणाम् इति

पा. (तु. तैत्रा १०, ६४, १) यनि. शोधः द. (तु. वैप २, ६२०) ।

पिता-पुत्र-

पितापुत्र-वत् सांख्य ४,४.

पितापुत्रीय-यम् कौ २,१५^b.

पितामह-हः कै १,२; ध्या ९;

१द्योत ३; नाप २; ३, ७७; ४,

३८; ५,१; ६,१; ७; ९,१; २०;

श १; त्रिवि ८,१; ३; १६; १७;

तुल्य १; पप ४१७; १; रुह १६;

सूता १,४; २, ४; नाप ४, १;

सार २१९: ७; २७२: १५;

गी १,१२; ९, १७; -हम् ध्या

३१; नाप २; ३, १; ७७; ४,

३८; ५,१; ६,१; सार २१९: १;

-हा: वृ ६, २, ८; गी १, ३४;

-हान् गी १,२६; -हेन नाप ५, १.

पितामह-मुख-खेन नाप २.

पितृ-कार्य-यम् नाप ६,२४.

पितृ-कार्या(र्व-अ)कार्य-र्थाणि

सार २८७: १५.

पितृ-किञ्चर-रक्षस्-क्षसाङ्गु १४.

पितृ-कृत-तस्य मना २,५९^d.

पितृ-गृह-हम् सार २४६: ५;

-हेषु इ १६: १८.

पितृ-ज्ञ-ज्ञ: सार १,९.

पितृ-तर्पण-वेदिका-का शि ४,

१८.

पितृ-तस(>) महा ३,३३.

पितृ-देव-व: तै १,११,२.

पितृ-देव-मनुष्य-व्याणाम् कलि ३

पितृ-पितामह-प्रपितामह-हान्

नाप ४,३८.

पितृ-पूजा(जा-आ)दि-दिभि: सी

३६.

पितृ-भूमि-मौ तारा ८३: ११.

पितृभूमि-मध्य-(स्थ)>स्था-

स्था तारा ८३,२१.

पितृ-मत्-मान् वृ ४,१,२-७.

पितृ-मातृ-कुल-लम् १संन्या २,

८९.

पितृ-मातृ-गुर्वा(द-आ)राधन-

पर-र: नाप ५,१; १संन्या २,

१३.

पितृ-मातृ-वधो(ध-उ)र्यध-

-धम् राउ ५,१८.

पितृ-मातृ-विधेय-य: नाप २;

शां १,५.

पितृ-मातृ-सहोदर-दारा(र-अ)पत्य-

गृहा(द-आ)राम-क्षेत्र-ममता-

संसारा(र-आ)वरण-संकल्प-

-ल्प: नि ३५.

पितृ-मेध^१-

पितृमेधिक-कान् २संन्या

१५: २.

पितृ-यागो(ग-उ)क्त-विधान-

-नेन नाप ४,३८.

पितृ-याग^१-या: प्र १, ९; -णम्वृ ६, २, २^०; -णस्य छां ५, ३,२; वृ ६, २, २^१.

पितृ-रू(प>)पा-पा मा ३.

पितृ-लोक^१-क: वृ १, ५, १६^१;

३, १, ८; -कम् छां ५, १०, ४; वृ

३, १, ८; ६, २, १६; सार २३५:

१; कान् छां ५, १०, ४; वृ ६, २,

१६; के क २, ३, ५; केन छां

८, २, १.

पितृलोक-काम-म: छा ८,

२, १.

पितृ-वस(ल>)ला-ला: सार

२३०: ८.

पितृ-वध-धात् म १, ११; -धेन

कौ ३, १.

पितृ-विधो(धा-उ)द्वय-द्वयम्

शि ५, ४६.

पितृ-व्यत-ता: गी ९, २५.

पितृ-ध्वषण-णम् ३^१व ४४१:

२१; ४४७: ४; ४५१: १८;

४५४: २३.

पितृ-श्राद्ध-धम् इ १६: १३; -धै

नाप ४, ३८.

पितृश्राद्धा(द-आ)दि-दिभि:

सार २३१: १६.

पितृ-समीप-पाठ नाप २.

पितृ-हन्-हा छां ७, १५, २; ३:

पित्रा(तृ-आ)दि-दीन् म १, ८.

पित्रादि-वारीर-दहन-हने

वम् १०.

पित्र्य^१-व्य: छां ७, १, ४; -व्यम्

छां ७, १, २; २, १; ७, १; वृ ४,

४, ४; शि ५, ४६.

पित्र्य>ध्या-वत्-वत: कौ

१, २^१.पित्त^१-त्तम् गर्भ २; योशि १, ९६;

यो १, ३१; ७०.

पैत्तिक^१-कम् वृ ४३३: २०.

पित्त-ज-जा: जाद ६, ३०.

पित्त-प्रस्थ-स्थम् गर्भ ५^१.

पित्त-स्थान-ने गर्भ २.

पित्तल^१-

पित्तल-संभव-वम् शि ६, १२३.

पि^१/धा(धारणे),>धापि, पिधा-

पयेव शि ७, ३६.

पि-धाय वना २०; नाप ६, १; वरा

५, २३.

पि-हित-त: तै १, ४, १; मै ५, ८;

मैत्रि ६, ८; -त्तम् वरा ५, ३०.

पिनाक^१-पिनाकिन्^१-किन: हं २; -की वृ १,

१, १२; अव्य ६.

a) पा ६, ३, २५ । b) 'पितापुत्र' इति अच्चा । c) वैपश् यद्र । इह = ब्रह्मन्, भोष्म- प्रश्न- अर्थविवेकः यस्य. द्र । d) तैश्चाथा १०, ५९ । e) 'नम् इति निसा, आन.संति. । f) 'नस्य इति निसा, आन.संति. । g) श्र १, ९१, २० । h) पा ४, २, ३१ । i) 'पित्र्यवतः' इति आन., 'पित्र्या पतत्' इति अच्चा । j) वैपश् यद्र । k) पावा ५, १, ३८ । l) 'प्तं प्र' इति अच्चा । m) व्यु. ? = धातुविशेष- । n) अत्र अपि इत्यस्य पूर्वाश्लोपः द्र. (द्र. पाशि २, ४, ८२) ।

√पिन्व्
पिन्वमा(न>)ना- न्ना मना २,
४३७°.

√विपास्, विपासा- √पा(पाने) द.
पिपीलिका^{1b}- का योशि १, ३३;
वरा ४, ३६; क्काम्बः वृ १, ४,
४; १६; -कायाम् योशि १, ११४.

पिप्पल^b- लम् सुं ३, १, १९°; वृ
४, ३, ३६; धे ४, ६९°; इ १२:
१०; नाउ १, ४९°; भव २, २९°.

पिप्पला(ल-अ)द^{1d}- दम् प्र १, १;
प्र १.

पैप्पलाद^{1a}- -० द श १; -दः
अ १; वृजा ७, ६; ७; श १; पं
१; -दम् गर्भ ५; श ३२; ३६;
-देन वृजा १, १; ७, ५.

पैप्पलादि^{1d}- -दिः जाया १.

पैप्पला(दक>)दिका^{1e}- का
गु ३.

पिप्पला(ल-अ)शान¹- नम् मन्त्रि
८; वृ ८.

पिप्पली^{1c}- स्त्रीम् शि ६, ७४.

√पिक्, पिक्त्- √पा(पाने) द.

पिली^{1b}- -० लि, ० लि-० लि व ४३५:
१९.

पिशाच^{1b}- -० च दत्ता १, ७; -चाः नि
६; २१; इ १६; ५; -चैः प्रा १, ५.

पैशाच- -चाः इ १६; ८.

पिशाच-भिक्षा- -क्षा इ १२; १७.

पिशाच-यक्षा- -क्षाः दे १०¹.

पिशाच-यक्षा(ल-अ)प्सरस्-
-रसाम् गु १५.

पिशाच-वत् भव ४, १७; मांसु ४, २.

पिशुन^b- -नः इ १७; ७; -नाः छा ७,
६, १; या २, २.

पेशुन्य- -न्यम् भव ५, ४.

√पिप्, पिनष्टि इ १८; १२.

पिष्ट- -ष्टान् वृ ६, ३, १३.

पिष्ट-रस-पूर्ण-

विष्टरसपूर्ण-ता- -तया सार
२२६; १.

पीठ^{1a}- -उम् ध्या २७^b; योशि १,
१०१; १७३; १७४; २, ६; ५,
८; १०; ११; त्रिता ५, २१; मा
७; रुह २३; गोपू १८; सौ
१, ३; ति ३१०; १४; १६; २३;
शि ६, १२३; वच ६; १७; -उस्य
रापू ५, ३; -उं रार ४, ७; योरा
१८; शि ७, ७६; व ४३०; १७.

पीठ-कक्ष-मूल-कन्द-नाल-पत्र-
पत्र-केसर-कर्णिका-सूर्यमण्डल-
सोम-वह्नि-अद्भ-विष्णु-रुद्र-
सत्व-रजस्-तम-आत्मन्- -स्या
सुता ४, ९.

पीठ-ग- -गम् गोपू १९¹; २०.

पीठ-पूजा- -जा सुता ४, ६.

पीठ-रूप- वेण योशि २, १२.

पीठां(ठ-अ)घरो(र-ऊ)ध्वं-पाशां-
(ध्वं-अ)चैन- -नम् रापू ५, १.

पीठावरणदेवतावधान^{1c}- -नेन
वच ६, ३४.

पीठो(ठ-उ)पपीठ-देवता-परिवृ-
(त>)ता- -नाम् त्रिता १, ७७;
सौ १, १.

√पीड> पीडि, पीडयेत् त्रिधा २,
१५; जाद ६, ३८; ३९.

पीडयते ध्या ८१; योचू ५४;
योशि १, २९; भव ४, १७.

पीडन- -नाम् भव ४, १४.

पीडा- -डया गी १७, १९.

पीडित- -तः शि ७, ३७; -तम् व.
४¹५; ११; ४६६; ९.

पीड्यमान, ना- -नः निक १, १९;
-नम् श १३; -ना त्रिवि ७३;
-ने अध्या ४७.

पीडित- √पा (पाने) द.

रपीत^{1a}- -तः गर्भ २; -तम् पं २.

रपीत, ता^{1c}- -तः छां ८, ६, १; -तम्
वच २, २१¹; २२; ३, ९; -तस्य
छां ८, ६, १; कौ ४, १९; सुभा
४; -¹ता नाउ १, १९; कालि
४०३; ५; -ताः लु ८¹; अक्ष ३;
रजां १, ९; -ताम् रुजा १, १०.

पीत-कौशेय-वासस्- -ससम्
नापू ४, २१.

पीत-भी(वा>)व- -वाणि सार
२८२; ४.

पीत-पुच्छ-पक्ष- -क्षाणि सार¹
२८२; ६.

पीत-रक्त-तरङ्ग-
पीतरक्ततरङ्गित-
पीतरक्ततरङ्गित-नाना-

ज्यो(रत्ना>)रत्न- -रत्नाः सार
२६६; ९.

पीत-वर्ण, र्णा- -र्णः वसू ९; ध्या
१२; व ४४१; १४; -र्णम् ध्या
९३, ८; १योत ८५; ता ५; गोच
६६; २; -र्णाः गोच ६७; १५.

पीतवर्ण-द्रव्यो(य-उ)पेत-
-तम् सं १, २, ८; अता ६¹.

पीतवर्णो(र्ण-उ)त्तर-दल-
-ले वि १३.

पीत-वर्णक- -कम् गोच ६९; ९.

पीत-व(स्त्र>)स्त्रा- -स्त्राम् व
४२६; १३.

पीत-वासस्- -ससम् १योत ९०;
पी ४२१; ३; -स्याः रापू ४, ७.

a) तैश्चा १०, ४२, १। b) वैपरि यद। c) ष्ट १, १६४, २०। d) = अणुविशेष-। e) = अणुवर्षण-
शाखाविशेष- (पा ४, ३, १२६)। f) उस. उप. कर्तारि कृत द.। g) व्यु. ? = औपधविशेष-। h) तु. टि. कुली-।
i) चाः यं इति अज्या.। j) व्यु. ?। k) 'पीतम्' इति निसा.। l) 'पीठम्' इति निसा., 'रूपम्' इति अत्र.।
m) पा. ? 'देवताः भव' इति शेषः द.। n) व्यु. ? = वर्णविशेष-। o) = वर्णविशेषवत्-। p) तैश्चा १०, ११, २।
q) 'पीता' इति अज्या.। r) 'तद्गुरुवर्णद्रव्योपेतव्योम' इति निसा.।

पिता-धुव^१-

पितापुत्र-वत् सांख ४,४.

पितापुत्रीय- -यम् कौ २, १५^b.

पितामह^२- -हः कै १,२; घ्या ९;

१शेत् ३; नाप २; ३, ७७; ४,

३८; ५, १; ६, १; ७; ९, १; २०;

श १; त्रिवि ८, १; ३; १६; १७;

बुध १; पप ४१७; १; रुह १६;

सूता १, ४; २, ४; नापू ४, १;

सार २१९: ७; २७२: १५;

गी १, १२; ९, १७; -हम् घ्या

३१; नाप २; ३, १; ७७; ४,

३८; ५, १; ६, १; सार २१९: १;

-हा: वृ ६, २, ८; गी १, ३४;

-हाव् गी १, २६; -हेन नाप ५, १.

पितामह-मुख- -खेन नाप २.

पितृ-कार्य- -यम् नाप ६, १४.

पितृ-कार्य(य-अ)कार्य- -याणि

सार २८७: १५.

पितृ-किन्नर-रक्षस- -क्षसाम् गु १४.

पितृ-कृत- -तस्य मना २, ५९९^d.

पितृ-गृह- -हम् सार २४६: ५;

-हेषु इ १६: १८.

पितृ-भ- -मः सार १, ९.

पितृ-तपंग-वेदिका- -का सि ४,

१८.

पितृ-तप्त(>) महा ३, ३३.

पितृ-देव- -सः तै १, ११, २.

पितृ-देव-मनुष्य- -व्याणाम् कति ३

पितृ-पितामह-प्रपितामह- -हाव्

नाप ४, ३८.

पितृ-पूजा(जा-आ)दि- -दिभिः सी

३६.

पितृ-भूमि- -मौ तारा ८३: ११.

पितृभूमि-मत्प- (स्थ>)स्था-

-स्था तारा ८३, २१.

पितृ-मत्- -मान् वृ ४, १, २-७.

पितृ-मातृ-कुल- -लम् १सन्त्या २,

८९.

पितृ-मातृ-गुर्वा(ह-आ)राधन-

पर- -रः नाप ५, १; १सन्त्या २,

१३.

पितृ-मातृ-वधो(ध-उ)स्पष्ट-

-अम् राउ ५, १८.

पितृ-मातृ-विधेय- -यः नाप २;

शां १, ५.

पितृ-मातृ-सहोदर-दारा(र-अ)पत्य-

गृहा(ह-आ)राम-क्षेत्र-ममता-

-संसारा(र-आ)वरण-संकल्प-

-ल्पः नि ३५.

पितृ-मेघ^३-

पितृमेधिक- -कान् २सन्त्या

१५: २.

पितृ-यागो(ग-उ)क-विधान-

-नेन नाप ४, ३८.

पितृ-याग^४- -णः प्र १, ९; -णम्

वृ ६, २, २^०; -णस्य छां ५, ३,

२; वृ ६, २, २^१.

पितृ-रूप(>)पा- -या भा ३.

पितृ-लोक^५- -कः वृ १, ५, १६^१;

३, १, ८; -कम् छां ५, १०, ४; वृ

३, १, ८; ६, २, १६; सार २३५:

१; -कात् छां ५, १०, ४; वृ ६, २,

१६; -के क २, ३, ५; -केन छां

८, २, १.

पितृलोक-काम- -मः छां ८,

२, १.

पितृ-वसत(ल>)ल्य- -लाः सार

२३०: ८.

पितृ-वध- -धाव् म १, ११; -धेन

कौ ३, १.

पितृ-विष्णो(धा-उ)द्वय- -द्वयम्

शि ५, ४६.

पितृ-वत- -ताः गी ९, २५.

पितृ-श्रवण- -णम् कु^६व ४४१:

२१; ४४७: ४; ४५१: १८;

४५४: २३.

पितृ-श्राद्ध- -द्वम् इ १६: १३; -द्वे

नाप ४, ३८.

पितृश्राद्धा(द्व-आ)दि- -दिभिः

सार २३१: १६.

पितृ-समीप- -पाव् नाप २.

पितृ-हन्- -हा छां ७, १५, २; ३:

पित्रा(तृ-आ)दि- -दीन् म १, ८.

पित्रादि-शरीर-दहन- -हने

वस् १०.

पित्र्य^७- -ज्यः छां ७, १, ४; -ज्यम्

छां ७, १, २; २, १; ७, १; वृ ४,

४, ४; शि ५, ४६.

पित्र्य(>)प्या-वत्- -वतः कौ

१, २^१.

पित्त^८- -त्तम् गर्भ २; योशि १, ९६;

यो १, ३१; ७०.

पैत्तिक^९- -कम् व ४३३: २०.

पित्त-ज- -जाः जाद ६, ३०.

पित्त-प्रस्थ- -स्थम् गर्भ ५^१.

पित्त-स्थान- -ने गर्भ २.

पित्तल^{१०}-

पित्तल-संभव- -वम् शि ६, १२३.

पि^{११}/घा(धाणे), >धापि, पिधा-

पयेव शि ७, ३६.

पि-धाय वना २०; नाप ६, १; वरा

५, २३.

पि-हित- -तः तै १, ४, १; मै ५, ८;

मैत्रि ६, ८; -त्तम् वरा ५, ३०.

पिनाक^{१२}-

पिनाकिन्^१- -किनः हं २; -की वृ^{१३}

१, १२; भाष्य ६.

a) पा ६, ३, २५ । b) 'पितापुत्र' इति अस्या । c) वैपरी यत् । d) इह = मद्राज्, भोष्य- प्रष्टु. कार्यविधेः
 वर्य. इ. । d) तैत्तिकम् १०, ५९ । e) 'नम् इति निगा., आन.संति. । f) 'नस्य इति निगा., आन.संति. । g) श्र १, ९१,
 २० । h) पा ४, २, ३१ । i) 'पिन्वयतः' इति आन., 'पिन्व्या पत्तव्' इति अस्या । j) वैपरी यत् । k) पाता ५, १, ३८ ।
 l) 'त्तं म' इति अस्या । m) म्यु. ! = धातुविशेष- । n) अत्र अपि इत्यस्य पूर्वसालोपः इ. (तु. पाति २, ४, ८२) ।

रुजा १, ४-६; गोच ६८: १२;
 १८; पा ५, १; ६, ३; ९, १;
 सार २८७: १७; शि ३, १४;
 ५, ३७; ६, १२; १४; ३३; ३४;
 ३७; ३८; ४२; ७२: १०४; १३२;
 २४८; २५१; २५४; २६५;
 २७९; २८०; -पयस्य मना २,
 ११९; १अव ३१; -पयात् योशि
 १, ४९; -पयानि श १; शि ६,
 १२६; -पये हं ८; गो ९, २१;
 -प्येन प्र ३, ७; वृ ३, १३; ४,
 ३, २२; ४, ५; सुवा ११; योशि
 १, ५०; ५, १७; -पयेभ्यः ऐ ४,
 ४; -पयेषु पा २, ७.
 २पुण्य, पया^० -पयः सुं १, २, ६; वृ ३,
 २, १३; ४, ४, ५; इ १०: १३;
 पा ४, ६; ५, १; ९, ८; हे ११;
 गो ७, ९; -पयम् प्र ३, ७; मै ५,
 ४; मैत्रि ६, ४; सुवा ११; वा ५;
 लक्ष १, २७; यो १, २८; ३८;
 गोच ६६: २; ६९: ९; गो ९,
 २०; १८, ७६; -पया सार २३०:
 ३; -पया: गो ९, ३३; -पयात्
 लव्य ७; -पयाताम् पा ४, ६;
 -पयानि गो २४; -पयात् पा
 ९, ८; -पयाय कौ २, ३; पा ४, ६.
 पुण्य-क्षेत्र -त्रेषु राव ५, २०.
 पुण्य-जला(ल-आ)वृत्त -त्ते नाप
 ४, २१.
 पुण्य-तम, मा -सम् गो ३;
 -मानि गो २४; -मात् गो ३
 ६७.
 पुण्य-तीर्थ -र्थानि नाप १.
 पुण्य-नक्षत्र -त्रे सुद्र ४.
 पुण्य-पुरुष -पै: त्रिभि ५, १२.
 पुण्य-लिङ्गा(श-अ)र्चन -ने शि
 ४, ३८.

१पुण्य-लोक^० -
 पुण्यलोक-विजित्य(ति-अ)-
 र्थ- -र्थाय मैत्रि ६, ३६.
 २पुण्य-लोक^० -क: छां ५, १०,
 १०; -का: छां २, २३, १.
 पुण्य-श्लोक -क: शा ३०;
 -का: शा ११.
 पुण्य-स्थल -लम् नाप १.
 पुण्यस्थल-समुत्पन्न -न्नम्
 १संन्या २, १.
 पुण्या(एय-आ)यतन-चारित्र-
 -री नाप ५, १८.
 पुण्या(एय-अ)ह -हे वृ ६, ३,
 १; शि ७, ११.
 १पुण्य-कर्म^० -र्मणाम् अत्ति १८;
 -र्मणि अत्ति ५.
 २पुण्य-कर्म^० -र्मणाम् गो ७,
 २८; १८, ७१.
 पुण्य-कीर्तन -न: अक्ष २, ३१.
 पुण्य-कृत् -कृत् वृ ४, ४, ९; -कृताम्
 मना १, १४९; गो ६, ४१.
 पुण्य-चित् -चित: छां ८, १, ६.
 पुण्य-(द>)दा -दे तुल ७१: ६.
 पुण्य-पवि(सु>)श्री -०त्रि व
 ४३६: १५.
 पुण्य-पाप -पे सुं ३, १, ३; मैत्रि
 ६, १८; कै २, ३; हं २१; पै ३,
 १; योशि ५, ६१; ६, २७; हे
 १३; -पै: त्रिभि ५, १; १अव ६.
 पुण्यपाप-कर्मा(र्म-अ)नुसा-
 रिन् -री ससा १, १९.
 पुण्यपाप-जया(य-आ)दि-
 पुण्यपापजयादि-क -कम्
 ते ५, ७७.
 पुण्यपाप-नियन्त्रित -न्त: ५वा
 ४९.
 पुण्यपाप-प्रचोदित -न्त: शां

१, ४.
 पुण्यपाप-फल -लै: १योत ८;
 योशि १, ६.
 पुण्यपाप-विमर्दन -न्म जाद
 ६, ५१९.
 पुण्यपाप-विवर्जित -न्ते योच्
 १३.
 पुण्यपापा(प-आख्या)>क्य-
 -ल्ये अघ्या ३९.
 पुण्य-प्रभाव -
 पुण्यप्रभाव-तस(>)१योत ३१.
 पुण्य-फल -लम् शि २, ३०; ४,
 २४; ५, २३; ६, ३; ८; १०; २४;
 २६; ३५; ३७; ४१; ६३; ६७;
 ६८; ९१; २००; २०६; २१०;
 २१७; २२५; २४१; २४३;
 २४५; २५०; २५२; २५७; २५९;
 २६१; २७१; २७४; २७७; ७,
 १३; १६; गो ८, २८.
 पुण्य-बीज -जम् शि ६, ४१.
 पुण्य-रूप -पाय पा २, ७.
 पुण्य-लक्ष्य -क्ये हे ५.
 पुण्य-लेख-विहीन -नस्य सिशि
 ३८०: १४.
 पुण्य-वत् -वताम् पा २, ७.
 पुण्य-वश -शात् योशि १, १४२.
 पुण्य-सम -सम् सु २९३: १२.
 पुण्य-संपद् -पदम् योशि १, ७७.
 पुण्य-हेतु -नुभि: सु १, १६.
 पुण्या(एय-आ)मक -कम् पा ६, २.
 पुण्या(एय-आ)दि -दि: ससा १,
 २१.
 पुण्या(एय-अ)पुण्य-वर्जित -न्त:
 तुज ११.
 पुण्या(एय-अ)पुण्य-हेतु -
 पुण्यापुण्यहेतु-व -स्वात् योम्
 २, १४.

a) तैआ १०, १, १। b) मत्वर्थाय: अच् प्र. (पा ५, २, १२७) इति १पुण्य- इत्यत: नाप. विवेक: ।
 c) कम. । d) बस. । e) °तात् इति तैआ १०, १, १४। f) °जि° इति निवा. । g) °विमर्दनं° इति श्रुत्या ।
 h) 'परमं पदम्' इति आन. । i) °ष्वसंशित: इति अच्चा. संदि. ।

पीता(त-अं)शु(क>)का-काः
पी ४२२: १५.

पीता(त-अ)म्बर-रम् राधा
३,१२; सार २६५: २०.

पीता(त-अ)लंकार-संप(अ>)-
धा-न्नाम् पी ४२१: ३.

पीत-(ल>)ला-ला त्रिना २,
१३५.

धपी(त>)ता^१-ता रापू ४, ६३.

पीत्वा √पा(पाने) द.

पीन-√प्या द.

पीयमान-√पा(पाने) द.

पीयूष^१-यम् ध्या ७९; योचू ५१;
६८; शां१, ७, ४३; योशि ५, ४१.

पीवर-√प्या द.

पुंस^१-

पुंस-पुंस: ते १, ३८; नाद २४;
पै ४, ५; योशि ३, २४; अव्य
१; २२ ३५: ४; सांका ६०; गी
२, ६२; पुंसा वृ ६, ३, १; कौ १,
२; पुंसाम् महा ३, ४६; या २,
१२; वरा २, ३; सु १, १, ४०;
व ४५९: ४; भव १, २७; २९;

पुंसि कौ १, २; अव्य ६; पुंमे
वृ ६, ४, २०.

पौंस^१-स्तानि कौ १, ७०.

पुंस-स्य-

पुंसवा(स-अ)दि-
पुंसवादि-वत् वत् २,
३, ३१.

पुम्-

पुं-रूप-यम् अव्य ६.

पुं-लिङ्ग-अम् वृ ९; सार
२३६: ११.

पुं-स्य(स्त्री-अ)ङ्गा(स्त्री-अ)स्या-
(स्त्री-अ)दि-कल्पना-ना
रापू १, ८.

पुं-हत्या-स्याम् रुजा २, ५.

पुम्-अर्थ-यंम् सांस् ६, ४०.

पुं-भाव-वम् जाद १०, ८.

पुमस^१-मात् पुं २, १, ५; धे ४,
३५^१; ५, १०; अशि १, ५; त्रवि
नाप २५; ६, १३; ८, ८; शां १,
६; ७, ४३; महा २, ३७; ए
११; अज्ञ ४, ६९; ५, २; ९; २१;
अक्षि २९; १आ २१; पाशु २, १;
११; यो ३, २०; सु २, २, ६६;
निह १, ६; नापू १, ८; यु ५२;
६५; भव २, २५; सांस् १, १३९;
सांका ११; गो २, ७१.

पुमस^१-मात् पुं २, १, ५; धे ४,
३५^१; ५, १०; अशि १, ५; त्रवि
नाप २५; ६, १३; ८, ८; शां १,
६; ७, ४३; महा २, ३७; ए
११; अज्ञ ४, ६९; ५, २; ९; २१;
अक्षि २९; १आ २१; पाशु २, १;
११; यो ३, २०; सु २, २, ६६;
निह १, ६; नापू १, ८; यु ५२;
६५; भव २, २५; सांस् १, १३९;
सांका ११; गो २, ७१.

पुमस^१-मात् पुं २, १, ५; धे ४,
३५^१; ५, १०; अशि १, ५; त्रवि
नाप २५; ६, १३; ८, ८; शां १,
६; ७, ४३; महा २, ३७; ए
११; अज्ञ ४, ६९; ५, २; ९; २१;
अक्षि २९; १आ २१; पाशु २, १;
११; यो ३, २०; सु २, २, ६६;
निह १, ६; नापू १, ८; यु ५२;
६५; भव २, २५; सांस् १, १३९;
सांका ११; गो २, ७१.

पुमस^१-मात् पुं २, १, ५; धे ४,
३५^१; ५, १०; अशि १, ५; त्रवि
नाप २५; ६, १३; ८, ८; शां १,
६; ७, ४३; महा २, ३७; ए
११; अज्ञ ४, ६९; ५, २; ९; २१;
अक्षि २९; १आ २१; पाशु २, १;
११; यो ३, २०; सु २, २, ६६;
निह १, ६; नापू १, ८; यु ५२;
६५; भव २, २५; सांस् १, १३९;
सांका ११; गो २, ७१.

पुमस^१-मात् पुं २, १, ५; धे ४,
३५^१; ५, १०; अशि १, ५; त्रवि
नाप २५; ६, १३; ८, ८; शां १,
६; ७, ४३; महा २, ३७; ए
११; अज्ञ ४, ६९; ५, २; ९; २१;
अक्षि २९; १आ २१; पाशु २, १;
११; यो ३, २०; सु २, २, ६६;
निह १, ६; नापू १, ८; यु ५२;
६५; भव २, २५; सांस् १, १३९;
सांका ११; गो २, ७१.

पुङ्ग^१-
पुङ्गा(ङ्-अ)तुपुङ्ग-विषये(य-ई)-
क्षण-त्पर-र: वरा २, ८२^१.

पुच्छ^१-च्छम् तै २, १-५, १; वृ १, २,
३; नाद १; अक्ष २; ३; यो १,
८३; गह ११५^१; १अव ४; च्छे
इ १२: १५.

पुच्छा(च्छ-आ)कार-रेण १अव ४.

पुच्छा(च्छ-आस्त्रा)>ख्य-ख्यम्
कह २२.

√पुद्
पुद्-

पुद्-द्वय-यम् १योत ११६;
वरा ५, ६३.

पुटि(त>)ता-नाम् पो १३.
पुटिति पो २१^१.

पुण्डरीक^१-क: पा७, ८; कम् छां
१, ६, ७; ८, १, १; २; वृ २, ३, ६;

ना ध; मना २, १२, ३५^१; सुवा
४^१; ११; क्षु १०; आबो १; पं
३५.

पुण्डरीका(क-अ)क्ष^१-क्ष वा
११; गोच ६६: १०; अश: ना
ध; आबो १; क्षाय चा २१;
नाउ २, ९.

पुण्ड^१-ण्डम् क ६४: २; गोच
६६: २१^१; षड्: वा१७; गोच
६६: १६.

पुण्ड-मध्य-ध्ये वा २१^१.

पुण्ड-स्थ-स्थम् वा २४.

२पुण्ड^१-ण्ड: आर्थे ८: १४.

३पुण्ड^१-
१पौण्ड^१-ण्डम् शि ६, २७.

४पुण्ड^१-
२पौण्ड^१-ण्डम् गी १, १५.

५पुण्ड^१-
३पौण्ड^१-

१पौण्ड^१-कालिक^१-क: गह
२१.

पौण्ड^१-कालिक-दूत-त: गह
२१

२पौण्ड^१-कालिक^१-
पौण्ड^१-कालिक-नाग-
-नाभ्याम् गह ५.

६पुण्ड^१-
पौण्ड^१-क-कम् गार ४०७:
१३.

१पुण्य-ण्यम् वृ १, ४, १५: ५,
२०; ४, ३, १५-१७; ३४: ते २,
३३; ४, १४; ध्या ६५; योशि १,
६७; ७७; ६, ६१; १अव ३१^१;

a) 'वित्तला' इति निता, अन्वा. संदि. । b) =यकार-बीजाक्षर- । c) वैप१ द्र. । d) पा ४, १, ८७ ।
e) 'पौंस्यनि' इति अन्वा, वे, । 'पीमानि' इति अन्वा. । f) पा. १ यनि. शोष: द्र. । g) पा ७, १, ८९ । h) रौ १०,
८, २७ । i) स्यु: =पुञ्ज-१ । j) पुंसा इति अन्वा. संदि. । k) मा १२, ४ । l) पा. १ पुटिता-> -ताम् इति
शोष: द्र. । m) तैसा १०, १०, ३ । n) स्यु: =मस्तकविहविशेष- । o) पा. १ 'पुण्ड१' इति शोष: द्र. । p) पुं-
स्यु: =पुञ्ज-१ । q) स्यु: =साहचर्योन् =सन्निवृत्तविशेष- । r) स्यु: =इन्द्रदण्ड- । s) अर्थ:
स्यु. प. १ । t) =साहचर्योन्- । u) स्यु: =नागविशेष- । v) वस. =नागविशेष- । w) द्रत. । x) स्यु: =अपिबिधेय- ।

हजा १, ४-६; गोच ६८; १२;
 १८; पा ५, १; ६, २; ९, १;
 सार २८७: १७; शि ३, १४;
 ५, ३७; ६, १२; १४; ३३; ३४;
 ३७; ३८; ४२; ७२; १०४; १२३;
 २४८; २५१; २५४; २६५;
 २७९; २८०; ष्यस्य मना २,
 १११; १अव ३१; ष्यात् योशि
 १, ४९; ष्यानि श १; शि ६,
 १२६; ष्ये हं ८; गी ९, २१;
 ष्येन प्र ३, ७; वृ ३, २, १३; ४,
 ३, २२; ४, ५; सुवा ११; योशि
 १, ५०; ५, ९७; ष्येभ्यः ऐ ४,
 ४; ष्येषु पा २, ७.
 २पुण्य, ष्या- ष्यः सुं १, २, ६; वृ ३,
 २, १३; ४, ५, ५; इ १०: १३;
 पा ४, ६; ५, १; ९, ८; हे ११;
 गी ७, ९; ष्यम् प्र ३, ७; मै ५,
 ४; मैत्रि ६, ४; सुवा ११; वा ५;
 अज १, २७; यो १, २८; ३८;
 गोच ६६: २; ६९: ९; गी ९,
 २०; १८, ७६; ष्या सार २३०:
 ३; ष्या: गी ९, ३३; ष्यात्
 अव्य ७; ष्यानाम् पा ४, ६;
 ष्यानि गोट २४; ष्याम् पा
 ९, ८; ष्याय वी २, ३; पा ४, ६.
 पुण्य-क्षेत्र- ऋषु राउ ५, २०.
 पुण्य-जला(ल-आ)वृत्त- ऋतेनाप
 ४, २१.
 पुण्य-तम, सा- मम् गोट ३;
 ऋानि गोट २४; ऋाम् गोट
 ६७.
 पुण्य-तीर्थ- ऋानि नाप १.
 पुण्य-नक्षत्र- ऋे मुद्र ४.
 पुण्य-पुरुष- ऋै: त्रिनि ५, १२.
 पुण्य-लिङ्गा(ह-आ)चैन- ऋे शि
 ४, ३८.

१पुण्य-लोक-
 पुण्यलोक-विजित्य(ति-अ)-
 र्थ- ऋाय मैत्रि ६, ३६.
 २पुण्य-लोक- ऋक: छां ५, १०,
 १०; ऋा: छां २, २३, १.
 पुण्य-श्लोक- ऋक: शा ३०;
 ऋा: शा ११.
 पुण्य-स्थल- ऋम् नाप १.
 पुण्यस्थल-समुत्पन्न- ऋम्
 १संन्या २, ९.
 पुण्या(एय-आ)यतन-चारिन्-
 ऋी नाप ५, १८.
 पुण्या(एय-अ)ह- ऋे वृ ६, ३,
 १; शि ७, ११.
 १पुण्य-कर्मन्- ऋणाम् अक्षि १८;
 ऋाणि अक्षि ५.
 २पुण्य-कर्मन्- ऋणाम् गी ७,
 २८; १८, ७१.
 पुण्य-कीर्तन- ऋन: अज २, ३१.
 पुण्य-कृत्- ऋत् वृ ४, ४, ९; कृताम्
 मना १, १४१; गी ६, ४१.
 पुण्य-चित्- ऋित: छां ८, १, ६.
 पुण्य-(द<)>दा- ऋदे तुल ७१: ६.
 पुण्य-पवि(तु>)ञी- ऋत्रि व
 ४३६: १५.
 पुण्य-पाप- ऋे सुं ३, १, ३; मैत्रि
 ६, १८; कै २, ३; हं २१; वै ३,
 १; योशि ५, ६१; ६, २७; हे
 १३; ऋै: त्रिनि ५, १; १अव ६.
 पुण्यपाप-कर्म(र्ष-अ)नुसा-
 रिन्- ऋी ससा १, १९.
 पुण्यपाप-जया(य-आ)दि-
 पुण्यपापजयादि-क- ऋम्
 ते ५, ७७.
 पुण्यपाप-निश्चिन्त- ऋत: ध्या
 ४९.
 पुण्यपाप-प्रचोदित- ऋत: शां

१, ४.
 पुण्यपाप-फल- ऋल: १योत ८;
 योशि १, ९.
 पुण्यपाप-विमर्दन- ऋन्म जाद
 ६, ५१.
 पुण्यपाप-विवर्जित- ऋते योचू
 १३.
 पुण्यपाप(प-आख्या)>ख्य-
 ऋख्ये अध्या ३९.
 पुण्य-प्रभाव-
 पुण्यप्रभाव-तस(>)१योत ३१.
 पुण्य-फल- ऋम् शि २, ३०; ४,
 २४; ५, २३; ६, ३; ८; १०; २४;
 २६; ३५; ३७; ४९; ६३; ६७;
 ६८; ९१; २००; २०६; २१०;
 २१७; २२५; २४१; २४३;
 २४५; २५०; २५२; २५७; २५९;
 २६१; २७१; २७४; २७७; ७,
 १३; ९६; गी ८, २८.
 पुण्य-धीन- ऋम् शि ६, ४१.
 पुण्य-रूप- ऋपाय पा २, ७.
 पुण्य-लक्ष- ऋधे हे ५.
 पुण्य-लेश-विहीन- ऋनस्य सिशि
 ३८०: १४.
 पुण्य-वत्- ऋवताम् पा २, ७.
 पुण्य-वदा- ऋवात् योशि १, १४२.
 पुण्य-सम- ऋम् सु २९३: १२.
 पुण्य-संपद्- ऋदम् योशि १, ७७.
 पुण्य-हेतु- ऋनि: शु १, १६.
 पुण्या(एय-आ)त्मक- ऋम् पा ६, ३.
 पुण्या(एय-आ)दि- ऋदि: ससा १,
 २१.
 पुण्या(एय-अ)पुण्य-वर्जित- ऋत:
 तुअ ११.
 पुण्या(एय-अ)पुण्य-हेतु-
 पुण्यापुण्यहेतु-व- ऋवात् योम्
 २, १४.

a) तैआ १०, ९, १। b) मत्वर्थाव: अच् प्र. (पा ५, २, १२७) इति १पुण्य- इत्यतः नाप. विवेकः।
 c) कम.। d) बस.। e) 'तात् इति तैआ १०, १, १४। f) 'त्रि' इति निशा.। g) 'विमर्श' इति आख्या.।
 h) 'परमं पदम्' इति आन.। i) 'ष्यसंज्ञितः इति आख्या. संति.।

पुण्या(स्य-अ)पुण्यो(स्य-ओ)ष्ठ-
-ष्टम् वत् ४,३४.

पुण्या(एव-आ)वृत्ति- -त्तिः नाप ६,
१°.

१पुत्र^b - -त्र कौ १, १५°; २, १११°;
सूता १, ४३; ६, १२; -त्रः क १,
१, १; वृ १, ५, १७°; ४, १, ६;
६, ४, १४-१६; १८; २८; कौ २,
१५°; शु १, ४; ६; १योत १३३°;
२योत १, ४, महा ४, १२९; कर् १;
इ १८: १५; १७; छाग २३; १७°;
२प्र ३४: १५; ३५: ४; स्व ६२:
२; ३; नापू ३, १०; शि ७,
१०९; व ४३७: १६५°; अद्वैभा
८; कथु २, २; भव १, १२; -त्रम्
छां १, ५, २; ४; ६, ८, १; वृ १, ५,
१७°; आह ५; मै १, १; मैत्रि
१, २; मैत्रे १, १; कौ १, १; २,
१५; नाप २; ३, ७७; निर्वा
२९८: १७; महा २, १८; १संन्या
१, १; कर् १; सु २, १, १; इ
१२: २१; १७: १५; ११; १८:
१५; २प्र ३३: १९; कथु १, १;
२, २; -त्रस्य कौ २, ११; १५;
श्र १, २; गी ११, ४४; -त्रा: छां
३, १, १; वृ २, ४, ५°; ४, ५, ६°;
शे २, ५५°; महा ३, ३५; इ १९:
१३; मैत्रि ६, २९; सार २१९:
१; २४०: २३; २४३: १६;
भव १, १२; गी १, ३४; ११,
२६; --त्रा: सार २३६: २३;
-त्राणाम् वृ २, ४, ५; ४, ५, ६;
-त्राव वृ १, ४, ८; गौ ४, १५;
-त्रात् प्र २, १३; छां ७, १, १;
१३, १; १४, १; आह १६; सुवा

१^b; १संन्या १, १; कर् १; कथु
१, १; २, ३; गी १, २६; -त्राय
छां ३, ११, ४; ५; वृ ६, ४, २०;
वृ १, ९; सु १; वपू २, १; -त्रे
पप ४१८: १९; जाद १, १६;
-त्रेण वृ १, ५, १६; १७; श्र ३,
२२; -त्रेभ्यः इ १९: २१; सूता
२, ६; -त्रैः गौ ३८: ५८.
पुत्री - श्री सार २६२: ९; २८५:
१३; १६; -त्र्यः सार २३०: ६;
-०त्र्यः सार २३०: १७.
पौत्र^c - १^bत्रम् कौ २, ८; १०;
-त्रा: गी १, ३४; -त्रान् गी १, २६.

पुत्र-कर्मन्-
पुत्रकर्म-वत् सांस् १, ३२.
पुत्र-काम- -माय शां ३, १.
पुत्रकामे(म-इ)ष्टि- -ष्टिना मु २,
१, १.
पुत्र-द- -दम् रापू ४, ६६.
पुत्र-दार- -रा: इ १८: ८; -रान्
नाप ३, ३२.
पुत्रदार(र-आ)दि-सङ्ग-
पुत्रदारादिसङ्ग-तसु(>)
शि ७, १०३.
पुत्र-दार-कुटुम्ब- -म्बेपु मैत्रि ६, २८
पुत्र-दार-गृहा(ह-आ)दि- -दिपु
गी १३, ९.
पुत्र-दारा:(१^b)-पशु-चोद^d - दम्
इ १८: ८.
पुत्र-दुःख- -खस्य या २, १७.
पुत्र-पशु- -शुत् क १, १, ८; वृ ६,
४, १२.
पुत्र-पौत्र- -त्रात् क १, १, २३; -त्रैः
शि ६, १५७.
पुत्रपौत्र(अ-आ)दि- -दिभिः
सु ४.

पुत्र-पौत्र-कवित्व- -स्वम् तारा
८४: ९.
पुत्र-पौत्र-महैश्वर्य-
पुत्रपौत्रमहैश्वर्य-वत्- -वान्
नाउ ३, १२.
पुत्र-मय- -यः वृ ३, ९, १७.
पुत्र-मित्रा(अ-आ)दिक- -केपु नाप
६, १६.
पुत्र-रोदम्^e छां ३, १५, २°.
पुत्र-वत्- -वान् शि ३, ११.
पुत्र-विश्लेष-कातर- -रः शु ३,
२१.
पुत्र-वृद्धि- -द्धिम् व ४३५: १५.
पुत्रा(अ-आ)दि- -दयः प्रसू ३, २, २;
-दीनाम् वत् १०.
पुत्रादि-देह- -हेपु मैत्रे १, ४, १४.
पुत्राद्य(दि-अ)पेक्षा- -क्षया
१भव ११.
पुत्रा(अ-आ)स-वम्पु-भव-स्थल-
-लम् नाप ७.
पुत्रा(अ-आ)भिप्राय- -यम् महा २,
१८.
पुत्रिन्- -त्री रया १२.
पुत्रीय- -यः इ १०: १३.
पुत्रै(अ-ए)षणा- -णा वृ ३, ५, १;
४, ४, २२; -णाया: वृ ३, ५, १;
४, ४, २२; वृ ६, ४.

२पुत्र^f-
पौत्रायण^g- -णः छां ४, १, १; ५; २,
१; ३; -णस्य छां ४, १, २.
पुनत्- ✓पू. द.
पुनत्^h पा ९, ५.
पुनर्(>)-ⁱ क १, १, ६; १५; प्र १, ९;
१०; २, १; ४; २; ५, ४; ५; सु १, २;
७; तै ३, २, १; ३, १; ५, १; ऐ ४, ४;

a) षण्यवृत्तिः इति अच्चा. , 'पुण्ये वृत्तिः' इति अच्चा. संति. । b) वैपश् यद्. । c) 'पुत्रः' इति शांभा ३, १; वे. । d) पूर्वंग 'दास्याः' इति पदेन न स. । भूतार्थविषयत्वात् क्षेत्रस्य ह्यविषयः । e) श्र १, ६९, १ । f) श्र १०, ११, १ । g) स्वपुं इति अच्चा. । h) 'पुत्रायत्' इति अच्चा. संति. । i) पा ४, १, १०४ । j) मंत्रा १, ५, १०; 'पुण्यम्' इति शांभा ४, ८; १० । k) पा. १ यनि. शोषः द्र. । l) द्रस. > षस. उप. भाप. । m) उत्स. उप. गणमुळ उत्सं. [पा ३, ४, १६ (वैदु. शं. सप्त. यत्र सप्त. निमित्ते द्र. उप. भाप. च)] । n) व्यु. १ = गोरप्रवर्तक-श्रुतिविशेष- । o) पा. १

छां छ, २, ३; ५, १०, ५; ७, २६, २; ८, १५, १; वृ १, २, ७; ५, २; ३, ९, २८, ४; खे ६, २२; गौ १, २३; कौ २, १२; वरा ३, ३^०; पुनः-पुनः क १, २, ६; प्र ४, ५; वृ १, ५, २; ६, २, २; मना १, १२४^०; मन्त्रि १९; त्रिवि ५, ४; त्रिना २, ९८; सं २, ३, ७; शां १, ६; योशि १, ५५.
 पुनः-को(श>)शा- -शा दे ९^०.
 पुनर-आरोपण- -णे ते ६, ८१.
 पुनर-आवर्तिन्- -तिनः गौ ८, १६.
 पुनर-आवृत्ति^१- -त्तिः वृ ६, २, १५; योशि ५, ६१.
 पुनरावृत्ति-रहित(त>)ता- -ताम् सु १, १, २०.
 पुनर-उत्पादन- -नम् छां ३, १०, ५.
 पुनर-उदयत्- -यतः प्र ४, २.
 पुनर-गुहा- -हा दे ९; त्रि ८.
 पुनर-जनन^१-
 पुनर्जनन-भोग-क(र>)री-
 -री मैत्रे २, २६.
 पुनर्जनन-वर्जित(त>)ता- -ता
 वच ४, ५२.
 पुनर-जननम्^१- -नम् त्रिवि ११; ह्यु
 १; त्रिता ५, ११; गौ ४, ९; ८,
 १५; १६.
 पुनर्जनन-क(र>)री- -री सु
 २, २, ६२.
 पुनर्जनन-निवृत्त्य(ति-अ)र्थ-
 -र्थम् ध्व ३, १.
 पुनर्जनन-विवर्जित- -ताः वि
 १९; -ताः ह्यु २०.
 पुनर्जनना(न्म-अ)ङ्कुर- -नम्

सु २, २, ६२.
 पुनर-हु^१- -हुः अक्षा १^०.
 पुनर-भव- -वः इ १७: ६४^०; -वम्
 प्र ३, ९.
 पुनर-भवन- -नम् स्व ६०: २.
 पुनर-भोजन- -नम् इ १४: ५.
 पुनर-स्यु- -स्युम् वृ १, २, ७, ५,
 २^३; ३, २, १०; ३, २.
 पुनर-वसु^{१०}- -सवे व ४३८: ३.
 पुनर-वाद-प्रसक्ति- -कैः सांस्
 ५, ३३.
 पुनान- √पू द.
 पुपुप्त्वस्- √पुप द.
 १-२पुद-, १-२पुद-, पुदप्ल-, पुदम-,
 पुदतः, पुदशरण-, पुदश्र्यां-,
 पुदस, पुदस्/क, पुदस्कृत-,
 पुदस्कृत्य, पुदस्ताव, पुदस्ताताव,
 पुदःसर-, पुदा, पुदाकल्प-, पुदा-
 कृत-, १-२पुराण-, पुदातन-,
 पुदाविद्-, पुदिशय-, पुदी-
 √पू द.
 पुदीतत्^{११}- -ततम् वृ २, १, १९; कौ
 ४, १९; -तति वृ २, १, १९.
 पुदीप^{१२}- -पम् छां ६, ५, १; म २,
 १६; ३०.
 पुदीप-कारिन्- -रिणः म २, ३०.
 पुदीपिन्- -पिणम् प्र १, ११.
 पुरु^१- -रुणि भाष ४, ३८४^०.
 पुरु-जित्- -जित् गौ १, ५
 पुरु-रूप- -पः वृ २, ५, १९४^०.
 पुरु-क्षिष्ट^{१३}-
 पौक्षिष्टि^{१४}- -ष्टिः तै १, ९, १.
 पुरु-हृत^{१५}- -०त् व ४६१: २४^०; -त्तः
 वपू २, ३४^०; -तम् आंयं ९: १८.

पुर्व(ह-अ)ञ्च्-
 पुरुची- -ची त्रि ८.
 १पु(>पू)रुप^{१६}- -०प मना २, ६५४^०;
 वपं ३१२: १५; -पः ई १६; क
 १, ३, ११; २, १, १२; १३, ३, ८;
 ३, ८; १७; प्र ४, २; ९; ६, १; २;
 ५; सुं १, २, ११; २, १, २; १०;
 ३, १, २; तै १, ६, १; २, १, १;
 ऐ २, ३; छां १, १, २; ६, ६; ७;
 ५; २, ६, १; १८, १, ३; १२, ६४^०;
 १४, १^०; १६, १; ४, ११-१३,
 १; १५, ३; ५; ५, ७, १; १०, २;
 ११, ६; ६, २, ३; ७, १; ८, १; ३;
 ५; १४, ३: ८, ७, ४; १२, ४; वृ १,
 ४, १; १०; १७; ५, २^३; १५; २,
 १, २-९; ११-१३; १६; १७; ३, ३;
 ५; ५, १^०-१२^०; १३; १४^०; १८^०;
 ३, २, ११-१३; ९, १०-१७; ९,
 २८, १; ४, २, २; ३, ११; १२; १४;
 १५; १८; १९; २१; ३६; ४, १;
 ५; १२; ५, ५, २; ३; ४; ६, १; १०,
 १; १५, १४^०; ६, २, १२-१५; ४,
 १; खे १, २; ३, १२; १३४^०; १४४^०;
 १५४^०; ४, ७; गौ १, ६; कौ १,
 २; २, ५^३; ३, ३^३; ४, २-११; १३;
 १४; १६-१९; मै २, ८^३; ३, ३; ४,
 ४, १०; ५, १; ६; मैत्रि २, ६^३; ३,
 ३; ६, १; ६; १०^४; २०^४; ३५४^०;
 ७, ११; कै २, १; गमं ३; ना १; मना
 २, १३, १४^०; २, १४^०; १५४^०;
 २४४^०; ७१४^०; ७१४^०; म १; २;
 अशि ३, ५; वृजा १, १; ५, १९;
 वृपू १, १; ४, १५, ४; ३०; ५, ५^३;
 वृषा १४^०; २; ६४^०; मन्त्रि १३^३;

a) 'कथम्' इति अख्या. । b) तैआ १०, १, १२ । c) 'पुरुची' इति अख्या. । d) उव, उप. < √दा दाने । e) = नक्षत्रविशेष- । f) वैपश् यद्. । g) तैआ २, ५, ८, ८ । h) अ ६, ४७, १८ । i) = अविशेष- । j) अ १०, ८४, ६ । k) 'पुरुरूपः' इति अ ६, ४७, १८ । l) तैआ १०, ६०, १ । m) अ १०, ९०, ३ । n) का ४०, १, १६ । o) तैआ १०, ३८, १ । p) अ १०, ९०, १ । q) अ १०, ९०, २ । r) मा ४०, १७ । s) तैआ १०, ११, १ । t) तैआ १०, १३, १^० । u) तैआ १०, १४, १ । v) तैआ १०, १६, १ । w) तैआ १०, ६३, १^० । x) 'पृष्ठाः' इति अख्या. ।

पुण्या(एय-अ)पुण्यो(एय-ओ)ष्ठ-
-ष्ठम् वच ४,३४.

पुण्या(एय-आ)वृत्ति- -त्तिः नाप ६,
१^०.

१पुत्र^० - -त्र कौ १, १५^०; २, ११^१;
सूता १, ४३; ६, १२; -त्रः क १,
१, १; वृ १, ५, १७^०; ४, १, ६;
६, ४, १४-१६; १०; २०; कौ २,
१५^०; शु १, ४; ६; १योत १३३^३;
२योत १, ४; महा ४, १२९; कर् १;
इ १८: १५; १७; छाग २३: १^०;
२प्र ३४: १५; ३५: ४; स्व ६२:
२; ३; नापू ३, १०; सि ७,
१०९; व ४३७: १६५^०; अद्वैमा
८; कथु २, २; भव १, १२; -ग्रम्
छां १, ५, ३; ४; ६, ८, १; वृ १, ५,
१७^०; आह ५; मै १, १; मैत्रि
१, २; मैत्रे १, १; कौ १, १; २,
१५; नाप २; ३, ७७; निर्वा
२९८: १७; महा २, १८; १संन्या
१, १; कर् १; सु २, १, १; इ
१२: २१; १७: १५; १९; १८:
१५; २प्र ३३: १९; कथु १, १;
२, २; -ग्रस्य कौ २, ११; १५;
शु १, २; गी ११, ४४; -त्रा: छां
३, १, १; वृ २, ४, ५^१; ४, ५, ६^१;
शे २, ५^१; महा ३, ३५; इ १९:
१३; मैत्रि ६, २९; सार २१९:
१; २४०: २३; २४३: १६;
भव १, १२; गी १, ३४; ११,
२६; -ग्रः सार २३६: २३;
-त्राणाम् वृ २, ४, ५; ४, ५, ६;
-त्राय वृ १, ४, ८; गी ४, १५;
-त्रान् प्र २, ११; छां ७, ३, १;
१३, १; १४, १; आह १^०; सुबा

१^०; १संन्या १, १; कर् १; कथु
१, १; २, ३; गी १, २६; -त्राय
छा ३, ११, ४; ५; वृ ६, ४, २०;
वृ १, ९; सु १; वपू २, १; -त्रे
पप ४१८: १९; जाद १, १६;
-त्रेण वृ १, ५, १६; १७; शु ३,
२२; -त्रेभ्यः इ १९: २१; सूता
२, ६; -त्रैः गोउ ३८: ५८.
पुत्री- -त्री सार २६२: ९; २८५:
१३; १६; -त्र्यः सार २३०: ६;
-०त्र्यः सार २३०: १७.
पौत्र^१- -^१ग्रम् कौ २, ८; १०;
-त्रा: गी १, ३४; -त्रान् गी १, २६.

पुत्र-कर्मन्-
पुत्रकर्म-वत् सांस् १, ३२.
पुत्र-काम- -माय शां ३, १.
पुत्रकामे(म-इ)ष्टि- -ष्टिना सु २,
१, १.
पुत्र-द- -दम् राष्ट्र ४, ६६.
पुत्र-दार- -रा: इ १८: ८; -रान्
नाप ३, ३२.
पुत्रदार(र-आ)दि-सङ्ग-
पुत्रदारादिसङ्ग-तस्(>)
शि ७, १०३.
पुत्र-दार-कुटुम्ब- -म्बेषु मैत्रि ६, २८
पुत्र-दार-गृहा(ह-आ)दि- -दिषु
गी १३, ९.
पुत्र-दारा:(र^१)-पशु-चोद^१- -दम्
इ १८: ८.
पुत्र-दुःख- -खस्य या २, १७.
पुत्र-पशु- -शुत् क १, १, ८; वृ ६,
४, १२.
पुत्र-पौत्र- -त्रान् क १, १, २३; -त्रैः
शि ६, १५७.
पुत्रपौत्र(त्र-आ)दि- -दिभिः
सुद ४.

पुत्र-पौत्र-कवित्व- -स्वम् तारा
८४: ९.

पुत्र-पौत्र-महैश्वर्य-
पुत्रपौत्रमहैश्वर्य-वत्- -वान्
नाउ ३, १२.

पुत्र-मय- -या: वृ ३, ९, १७.

पुत्र-मित्रा(त्र-आ)दिक- -केषु नाप
६, १६.

पुत्र-रोदम्^१ छां ३, १५, २^१.

पुत्र-वत्- -वान् शि ३, ११.

पुत्र-विक्षेप-कावर- -रः शु ३,
२१.

पुत्र-वृद्धि- -द्धिम् व ४३५: १५.

पुत्रा(त्र-आ)दि- -दयः प्रसू ३, २, २;
-दीनाम् वसू १०.

पुत्रादि-देह- -हेषु मैत्रे १, ४, १४.

पुत्राद्य(दि-अ)पेक्षा- -क्षया
१भव ११.

पुत्रा(त्र-आ)स-वन्तु-भव-स्थल-
-लम् नाप ७.

पुत्रा(त्र-आ)भिप्राय- -यम् महा २,
१८.

पुत्रिन्- -त्री रया १२.

पुत्रीय- -यः इ १०: १३.

पुत्रै(त्र-ए)पणा- -णा वृ ३, ५, १;
४, ४, २२; -णायाः वृ ३, ५, १;
४, ४, २२; वृ ६, ४.

२पुत्र^०-
पौत्रायण^१- -णः छां ४, १, १; ५; २;
१; ३; -णस्य छां ४, १, २.

पुनत्- ✓पू ६.

पुनत्^० पा ९, ५.

पुनर^०(>)-^०क १, १, ६; १५; प्र १, ९;
१०; २, १; ४; २, ५, ४; ५; सु १, २;
७; तै ३, २, १; १, १; ५, १; ऐ ४, ४;

n) ०व्यवृत्तिः इति अश्या., 'पुण्ये वृत्तिः' इति अश्या. संति. । b) वैपश् यद. । c) 'पुत्रः' इति शांभा ३, १; वे. । d) पूर्वेण 'दास्याः' इति पदेन न स. । भूतार्थविषयत्वात् क्षेत्रस्य भाविपयः । e) श्र १, ६९, १ । f) श्र १०, ११, १ । g) स्वपुं इति अश्या. । h) 'पुरणम्' इति अश्या. संति. । i) पा ४, १, १०४ । j) मंत्रा १, ५, १०; 'पुण्यम्' इति शांभा ४, ८; १० । k) पा. ? यनि. शोषः द. । l) दस. > वस. उप. भाप. । m) उत. उप. गणमुत् उत्तं. [पा ३, ४, १६ (वैशु. सं. सप्त. यत्र सप्त. निमित्तो द. उप. भाप. च)] । n) द्यु. १ = गोरप्रवर्तक-श्राविकविशेष- । o) पा. १

छां ४, २, ३; ५, १०, ५; ७, २६, २; ८, १५, १; वृ १, २, ५; ५, २; ३, ९, २८, ४; खे ६, २२; गौ १, २३; कौ २, १२; वरा ३, ३०; पुनः-पुनः क १, २, ६; प्र ४, ५; वृ १, ५, २; ६, २, २; मना १, १२^४; मन्त्रि १९; त्रिवि ५, ४; त्रिवा २, ९८; मं २, ३, ७; थां १, ६; योशि १, ५५.
 पुनः-को(शि>)शा- -शा दे ९.
 पुनर-भारोपण- -णे ते ६, ८१.
 पुनर-आवर्तिन्- -तिनः गौ ८, १६.
 पुनर-आवृत्ति- -ति: वृ ६, २, १५; योशि ५, ६१.
 पुनरावृत्ति-रहित(त>)ता- -ताम् सु १, १, २०.
 पुनर-उत्पादन- -नम् छां ३, १७, ५.
 पुनर-उदयत्- -यतः प्र ४, २
 पुनर-गुहा- -हा दे ९; त्रि ८.
 पुनर-जनन-
 पुनर्जनन-भोग-क(र>)री- -री मैत्रे २, २६.
 पुनर्जनन-वर्जित(त>)ता- -ता अक्ष ४, ५२.
 पुनर-जन्म- -न्म त्रवि ११; लु १; त्रिता ५, ११; गौ ४, ९; ८, १५; १६.
 पुनर्जन्म-क(र>)री- -री सु २, २, ६२.
 पुनर्जन्म-निवृत्त्यति-अर्थ- -र्थम् पत्र ३, १.
 पुनर्जन्म-विवर्जित- -तः वि १९; -ताः लु २०.
 पुनर्जन्मा(न्म-अ)ङ्कुर- -रम्

सु २, २, ६३.
 पुनर-कु- -दुः अक्षा १.
 पुनर-भव- -वः इ १७:६^{११}; -वम् प्र ३, ९.
 पुनर-भवन- -नम् स्व ६०:२.
 पुनर-भोजन- -नम् इ १४:५.
 पुनर-मृत्यु- -मृत्युम् वृ १, २, ७; ५, २; ३, २, १०; ३, २.
 पुनर-वसु^{१०}- -सवे व ४३८:३.
 पुनर-वाद-प्रसक्ति- -के: सांघ ५, ३३.
 पुनान- ✓पू द.
 पुपुष्वस्- ✓पुपू द.
 १-२पुर्- १-२पुर्-पुर्णवृ- , पुर्ण- , पुर्णतः , पुर्णशरण- , पुर्णश्रयां- , पुर्णस्व , पुर्णस्व/कृ , पुर्णस्वत- , पुर्णस्वत्य , पुर्णस्वाव , पुर्णस्वात्ताव , पुर्णस्वर- , पुर्णस्वराकल्प- , पुर्णस्वकृत- , १-२पुर्ण- , पुर्णतन- , पुर्णविद्- , पुर्णशय- , पुर्ण- ✓पू द.
 पुरीतत्^{११}- -तत्त्वं वृ २, १, १९; कौ ४, १९; -तति वृ २, १, १९.
 पुरीप^{११}- -पम् छां ६, ५, १; भ २, १६; ३०.
 पुरीप-कारिद्- -रिणः भ २, ३०.
 पुरीपिन्- -पिणम् प्र ६, ११.
 पुर^{११}- -रुग्नि नाप ४, ३८^{१६}.
 पुर-जित्- -जित् गौ १, ५.
 पुर-रूप- -पः वृ २, ५, १९^{१४}.
 पुर-शिटि^{११}-
 पौरुशिटि^{११}- -टि: तै १, ९, १.
 पुर-हृत^{११}- -त व ४६१:२^{११}; -तः वपू २, ३१^६; -तम् आपे ९:१८.

पूर्व(र-अ)ङ्क्-
 पुरुची- -ची त्रि ८.
 रपु(>पु)रुष- -रुषमना २, ६५^{११}; वपं ३१२:१५; -यः ई १६; क १, ३, ११; २, १, १२; १३:२, ८; ३, ८:१७; प्र ४, २; ९; ६, १; २; ५; सुं १, २, ११; २, १, २; १०; ३, १, २; तै १, ६, १; २, १, १; ऐ २, ३; छां १, १, २; ६, ६; ७; ५; २, ६, १; १८, १; ३; १२, ६^{११}; १४, १; १६, १; ४, ११-१३, १; १५, १; ५; ५, ७, १; १०, २; ११, ६; ६, २, ३; ७, १; ८, १; ३; ५; १४, २: ८, ७, ४; १२, ४; वृ १, ४, १; १०; १७; ५, २; १५; २, १, २-९; ११-१३; १६; १७; ३, ३; ५; ५, १-१२; १३; १४; १८; ९, ३, ११-१३; ९, १०-१७; ९, २८, १; ४, २, ३; ११; १२; १४; १५; १८; १९; २१; ३६; ४, १; ५; १२; ५, ५, २; ३; ४; ६, १; १०, १; १५, १^{११}; ६, २, १२-१५; ४, १; खे १, २; ३; १२; १३^{११}; १४^{११}; १५^{११}; १६^{११}; ७, १; गौ १, ६; कौ १, २; २, ५; ३; ३; ४, २-११; १३; १४; १६-१९; मै २, ८; ३, ३; ४, ४, १०; ५, १; ६; मैत्रि २, ६; ३, ३; ६, १; ६; १०; ३०; ३१^{११}; ७, ११; कै २, १; गर्भ ३; ना १; मना २, १३, १^{११}; २, १४^{११}; १५^{११}; २४^{११}; ७१^{११}; ७२^{११}; ७३^{११}; ७४^{११}; ७५^{११}; ७६^{११}; ७७^{११}; ७८^{११}; ७९^{११}; ८०^{११}; ८१^{११}; ८२^{११}; ८३^{११}; ८४^{११}; ८५^{११}; ८६^{११}; ८७^{११}; ८८^{११}; ८९^{११}; ९०^{११}; ९१^{११}; ९२^{११}; ९३^{११}; ९४^{११}; ९५^{११}; ९६^{११}; ९७^{११}; ९८^{११}; ९९^{११}; १००^{११}; १०१^{११}; १०२^{११}; १०३^{११}; १०४^{११}; १०५^{११}; १०६^{११}; १०७^{११}; १०८^{११}; १०९^{११}; ११०^{११}; १११^{११}; ११२^{११}; ११३^{११}; ११४^{११}; ११५^{११}; ११६^{११}; ११७^{११}; ११८^{११}; ११९^{११}; १२०^{११}; १२१^{११}; १२२^{११}; १२३^{११}; १२४^{११}; १२५^{११}; १२६^{११}; १२७^{११}; १२८^{११}; १२९^{११}; १३०^{११}; १३१^{११}; १३२^{११}; १३३^{११}; १३४^{११}; १३५^{११}; १३६^{११}; १३७^{११}; १३८^{११}; १३९^{११}; १४०^{११}; १४१^{११}; १४२^{११}; १४३^{११}; १४४^{११}; १४५^{११}; १४६^{११}; १४७^{११}; १४८^{११}; १४९^{११}; १५०^{११}; १५१^{११}; १५२^{११}; १५३^{११}; १५४^{११}; १५५^{११}; १५६^{११}; १५७^{११}; १५८^{११}; १५९^{११}; १६०^{११}; १६१^{११}; १६२^{११}; १६३^{११}; १६४^{११}; १६५^{११}; १६६^{११}; १६७^{११}; १६८^{११}; १६९^{११}; १७०^{११}; १७१^{११}; १७२^{११}; १७३^{११}; १७४^{११}; १७५^{११}; १७६^{११}; १७७^{११}; १७८^{११}; १७९^{११}; १८०^{११}; १८१^{११}; १८२^{११}; १८३^{११}; १८४^{११}; १८५^{११}; १८६^{११}; १८७^{११}; १८८^{११}; १८९^{११}; १९०^{११}; १९१^{११}; १९२^{११}; १९३^{११}; १९४^{११}; १९५^{११}; १९६^{११}; १९७^{११}; १९८^{११}; १९९^{११}; २००^{११}; २०१^{११}; २०२^{११}; २०३^{११}; २०४^{११}; २०५^{११}; २०६^{११}; २०७^{११}; २०८^{११}; २०९^{११}; २१०^{११}; २११^{११}; २१२^{११}; २१३^{११}; २१४^{११}; २१५^{११}; २१६^{११}; २१७^{११}; २१८^{११}; २१९^{११}; २२०^{११}; २२१^{११}; २२२^{११}; २२३^{११}; २२४^{११}; २२५^{११}; २२६^{११}; २२७^{११}; २२८^{११}; २२९^{११}; २३०^{११}; २३१^{११}; २३२^{११}; २३३^{११}; २३४^{११}; २३५^{११}; २३६^{११}; २३७^{११}; २३८^{११}; २३९^{११}; २४०^{११}; २४१^{११}; २४२^{११}; २४३^{११}; २४४^{११}; २४५^{११}; २४६^{११}; २४७^{११}; २४८^{११}; २४९^{११}; २५०^{११}; २५१^{११}; २५२^{११}; २५३^{११}; २५४^{११}; २५५^{११}; २५६^{११}; २५७^{११}; २५८^{११}; २५९^{११}; २६०^{११}; २६१^{११}; २६२^{११}; २६३^{११}; २६४^{११}; २६५^{११}; २६६^{११}; २६७^{११}; २६८^{११}; २६९^{११}; २७०^{११}; २७१^{११}; २७२^{११}; २७३^{११}; २७४^{११}; २७५^{११}; २७६^{११}; २७७^{११}; २७८^{११}; २७९^{११}; २८०^{११}; २८१^{११}; २८२^{११}; २८३^{११}; २८४^{११}; २८५^{११}; २८६^{११}; २८७^{११}; २८८^{११}; २८९^{११}; २९०^{११}; २९१^{११}; २९२^{११}; २९३^{११}; २९४^{११}; २९५^{११}; २९६^{११}; २९७^{११}; २९८^{११}; २९९^{११}; ३००^{११}; ३०१^{११}; ३०२^{११}; ३०३^{११}; ३०४^{११}; ३०५^{११}; ३०६^{११}; ३०७^{११}; ३०८^{११}; ३०९^{११}; ३१०^{११}; ३११^{११}; ३१२^{११}; ३१३^{११}; ३१४^{११}; ३१५^{११}; ३१६^{११}; ३१७^{११}; ३१८^{११}; ३१९^{११}; ३२०^{११}; ३२१^{११}; ३२२^{११}; ३२३^{११}; ३२४^{११}; ३२५^{११}; ३२६^{११}; ३२७^{११}; ३२८^{११}; ३२९^{११}; ३३०^{११}; ३३१^{११}; ३३२^{११}; ३३३^{११}; ३३४^{११}; ३३५^{११}; ३३६^{११}; ३३७^{११}; ३३८^{११}; ३३९^{११}; ३४०^{११}; ३४१^{११}; ३४२^{११}; ३४३^{११}; ३४४^{११}; ३४५^{११}; ३४६^{११}; ३४७^{११}; ३४८^{११}; ३४९^{११}; ३५०^{११}; ३५१^{११}; ३५२^{११}; ३५३^{११}; ३५४^{११}; ३५५^{११}; ३५६^{११}; ३५७^{११}; ३५८^{११}; ३५९^{११}; ३६०^{११}; ३६१^{११}; ३६२^{११}; ३६३^{११}; ३६४^{११}; ३६५^{११}; ३६६^{११}; ३६७^{११}; ३६८^{११}; ३६९^{११}; ३७०^{११}; ३७१^{११}; ३७२^{११}; ३७३^{११}; ३७४^{११}; ३७५^{११}; ३७६^{११}; ३७७^{११}; ३७८^{११}; ३७९^{११}; ३८०^{११}; ३८१^{११}; ३८२^{११}; ३८३^{११}; ३८४^{११}; ३८५^{११}; ३८६^{११}; ३८७^{११}; ३८८^{११}; ३८९^{११}; ३९०^{११}; ३९१^{११}; ३९२^{११}; ३९३^{११}; ३९४^{११}; ३९५^{११}; ३९६^{११}; ३९७^{११}; ३९८^{११}; ३९९^{११}; ४००^{११}; ४०१^{११}; ४०२^{११}; ४०३^{११}; ४०४^{११}; ४०५^{११}; ४०६^{११}; ४०७^{११}; ४०८^{११}; ४०९^{११}; ४१०^{११}; ४११^{११}; ४१२^{११}; ४१३^{११}; ४१४^{११}; ४१५^{११}; ४१६^{११}; ४१७^{११}; ४१८^{११}; ४१९^{११}; ४२०^{११}; ४२१^{११}; ४२२^{११}; ४२३^{११}; ४२४^{११}; ४२५^{११}; ४२६^{११}; ४२७^{११}; ४२८^{११}; ४२९^{११}; ४३०^{११}; ४३१^{११}; ४३२^{११}; ४३३^{११}; ४३४^{११}; ४३५^{११}; ४३६^{११}; ४३७^{११}; ४३८^{११}; ४३९^{११}; ४४०^{११}; ४४१^{११}; ४४२^{११}; ४४३^{११}; ४४४^{११}; ४४५^{११}; ४४६^{११}; ४४७^{११}; ४४८^{११}; ४४९^{११}; ४५०^{११}; ४५१^{११}; ४५२^{११}; ४५३^{११}; ४५४^{११}; ४५५^{११}; ४५६^{११}; ४५७^{११}; ४५८^{११}; ४५९^{११}; ४६०^{११}; ४६१^{११}; ४६२^{११}; ४६३^{११}; ४६४^{११}; ४६५^{११}; ४६६^{११}; ४६७^{११}; ४६८^{११}; ४६९^{११}; ४७०^{११}; ४७१^{११}; ४७२^{११}; ४७३^{११}; ४७४^{११}; ४७५^{११}; ४७६^{११}; ४७७^{११}; ४७८^{११}; ४७९^{११}; ४८०^{११}; ४८१^{११}; ४८२^{११}; ४८३^{११}; ४८४^{११}; ४८५^{११}; ४८६^{११}; ४८७^{११}; ४८८^{११}; ४८९^{११}; ४९०^{११}; ४९१^{११}; ४९२^{११}; ४९३^{११}; ४९४^{११}; ४९५^{११}; ४९६^{११}; ४९७^{११}; ४९८^{११}; ४९९^{११}; ५००^{११}; ५०१^{११}; ५०२^{११}; ५०३^{११}; ५०४^{११}; ५०५^{११}; ५०६^{११}; ५०७^{११}; ५०८^{११}; ५०९^{११}; ५१०^{११}; ५११^{११}; ५१२^{११}; ५१३^{११}; ५१४^{११}; ५१५^{११}; ५१६^{११}; ५१७^{११}; ५१८^{११}; ५१९^{११}; ५२०^{११}; ५२१^{११}; ५२२^{११}; ५२३^{११}; ५२४^{११}; ५२५^{११}; ५२६^{११}; ५२७^{११}; ५२८^{११}; ५२९^{११}; ५३०^{११}; ५३१^{११}; ५३२^{११}; ५३३^{११}; ५३४^{११}; ५३५^{११}; ५३६^{११}; ५३७^{११}; ५३८^{११}; ५३९^{११}; ५४०^{११}; ५४१^{११}; ५४२^{११}; ५४३^{११}; ५४४^{११}; ५४५^{११}; ५४६^{११}; ५४७^{११}; ५४८^{११}; ५४९^{११}; ५५०^{११}; ५५१^{११}; ५५२^{११}; ५५३^{११}; ५५४^{११}; ५५५^{११}; ५५६^{११}; ५५७^{११}; ५५८^{११}; ५५९^{११}; ५६०^{११}; ५६१^{११}; ५६२^{११}; ५६३^{११}; ५६४^{११}; ५६५^{११}; ५६६^{११}; ५६७^{११}; ५६८^{११}; ५६९^{११}; ५७०^{११}; ५७१^{११}; ५७२^{११}; ५७३^{११}; ५७४^{११}; ५७५^{११}; ५७६^{११}; ५७७^{११}; ५७८^{११}; ५७९^{११}; ५८०^{११}; ५८१^{११}; ५८२^{११}; ५८३^{११}; ५८४^{११}; ५८५^{११}; ५८६^{११}; ५८७^{११}; ५८८^{११}; ५८९^{११}; ५९०^{११}; ५९१^{११}; ५९२^{११}; ५९३^{११}; ५९४^{११}; ५९५^{११}; ५९६^{११}; ५९७^{११}; ५९८^{११}; ५९९^{११}; ६००^{११}; ६०१^{११}; ६०२^{११}; ६०३^{११}; ६०४^{११}; ६०५^{११}; ६०६^{११}; ६०७^{११}; ६०८^{११}; ६०९^{११}; ६१०^{११}; ६११^{११}; ६१२^{११}; ६१३^{११}; ६१४^{११}; ६१५^{११}; ६१६^{११}; ६१७^{११}; ६१

ध्या १०६; त्रिवि २९; ११०;
 १ शोत १४०; नाप ६, १; ९, १;
 मं १, ४, १; त्रिवि १, ११; १२;
 २, १५; १७; ४, ११; ८, १०;
 १५; २३; रार ५, ७; ८; सुद्र २३;
 ४; शां १, ३, १२; महा १, १, ११;
 ६, ६१; शारी ९; अव्य ३;
 अज २, ४४; ३, २०; अक्षि १०;
 कुं ५; १७; सावि ९; १०;
 १ आ १; २ आ १-३; त्रिता ३,
 २३; ता १, २, २, ३; प्रा २, १;
 गोपू २५; शा २०; २२; सु २, २,
 ५९; अर्द्ध १८; आयं ८: १८;
 इ १०: ४; निरु १, ६; गोच
 ६८: ७; नाच १, १६: ३, २२;
 कृपु २६; सार २१९: ५; २२०;
 १२; १४; २२१: ८; १०; २४५:
 १३; २५०: १९; २७४: ९;
 २७५: ५; वि १५; लि ३११:
 ६; वटु ३१५: ५; सि १, १४;
 २५; ५, ३८; ६, ११७; हे ५;
 गार ४०५: ४; सु ७; ४२;
 अद्वैमा ३; भव १, ५२; २, ८;
 १; ३२; ४१; ४, ३; चू १२;
 वपू १, २; २, १; ३, १; वर
 २, ३; १; ३४; सांस् १, १५; ६१;
 १३३; ६, ५४; सांका १; ७, ५५;
 ६५; गो २, २१; ३, १९; ३६;
 ८, ४; २२, ११, १८; ३८; १३;
 २०; २१; २२; १५, १७; १७,
 ३; -पम् कर, २, १; प्र ५, ५, ६,
 १, ५; ६; सुं १, २, १३; ३, १, ३;
 ३, १, ८; ए १, ३; २, ३; ३, १३;
 छां २, १, ७; ६, ४, ७; ८, ६;
 १४-१६, १; ३२, १, १५; ३, ७, २;
 १, १०-१७; २६; ६, २, १४; ३

३, ६१; ८१; १९; कौष्ठ, १२१;
 १८; मैत्रि ६, १८; ३५; के १,
 १; मना १, ५१; २, २३१; अशि
 ३, ६, ५, ५; वपू १, १२; मन्त्रि
 १४; ध्या १०५; नाप ९, १४;
 रा ५; त्रिवि ४, ५१; सुद्र ४;
 महा १, १; ४, ७१; भ २, ३; पं
 १९; च २०: १११; २१: १३;
 चा १६; निरु १, २०; गोच ६८:
 ५; पा ३, ८; ७, ५१; सार
 २५८: १२; वटु ३१५: ६; स
 ३७९: ४; रशितं १५१; ३०;
 मृद: १४; १७; नी १, ५१; ४६४:
 १११; भव २, ७; ४३; ४६;
 चू १४; वर ३, ५८; ४, ३०; वस्
 १, २, २६; गी २, १५; ८, १०,
 १०; १२; १३, १९; २३; १५, ४;
 -पस्य क १, १, ८; प्र ३, ८; छां
 १, १, २; ६, ८, ६; वृ २, ३, ६; ३,
 २, १३; ४, १, ९; ३, १; ४, १;
 मना १, ५१; ३, २; मं ५, ६;
 मैत्रि ४, ६; ६, ६; ध्या ७; त्रिवि
 ३५; मं १, २, ९; अता ६;
 सुद्र १, ५; महा ५, १८५; ६,
 ५४; पत्र २, जाद ६, १७; ७,
 ९, ९; सु २, १, १; इ १४:
 १७; निरु २, २; व ४५९: २;
 सांस् १, ६६, २, ५; ३, २६; ७१;
 ५, ४६, ६, ६; सांका १९; २१;
 ३६; ३७, ५८; ५९; ६१;
 योस् ४, १७; गी २, ६०;
 -पा: ए ५, ३; वृ ३, ९, २६; मैत्रि
 १, ४, १३; नाप ५, १; योचू
 ७२; महा १, १; ६, २५; सु १,
 २, ६; सार २४३: ११; सि १,
 १३; गी ९, ३; पाणाम कौष्ठ, १८;

राज ५, २५; त्रिता ५, १; -पार
 क १, ३, ११; सुं १, १, ७; २, १,
 ५; छां ३, १२, ७; मना १, २१;
 ग१३; सु २७; ४२; -पार वृ ३,
 ९, २६; मना १, ११; -पार रार
 २, ६३; -पे प्र ३, ३, ४, १; तै २,
 ८, ५; ३, १०, ४; ए ४, १; छां ३,
 १२, ३; ४; ८; १३, ७; ४, १०,
 ३; वृ ३, ९, ४, ५, १; मै २, ८;
 मैत्रि २, ६; पं ३, १; जाद ८, ७; पा
 ९, ८; -वेण खे ३, ९१; मना २,
 १२, ३१; मं ३, ३; मैत्रि ३, ३;
 वपू ५, ५; सुद्र १, ६१; अज ४,
 १२; -वी गी १५, १६.

पुरुषी - -वि वपं ३१२:
 १६; व ४३७: ३.

वौरुष - -पम् महा ४, ९३;
 १०४; १२८; ५, ८८; सु २, २,
 १; भव १, ४८; ५०; गी ७, ८;
 १८, २५; -पार भव १, ४५;
 -वेण खे ३, ९१; वी ३, १; महा
 ४, १०३; अज ४, ७४; सु २,
 २, ६; ७; १५; भव १, ४७.

पौरुष-यत्न - -वेण रुजा १,
 १३.

पौरुषेय - -यम् सांस् ५, ५०.
 पौरुषेय-त्व - -त्वम् सांस्
 ५, ४६.

पुरुष-का - -र: पित्र १, १२.
 पुरुष-कीटक - -कम् महा ४, ८९.
 पुरुष-क्याति - -ते: योस् १, १६.
 पुरुष-ज्ञ - -ज्ञ: अता १५.
 पुरुष-ज्ञान - -नम् शां १, ७, ५२;
 योस् ३, ३६.
 पुरुष-त्व - -त्वम् योशि ४, १५; सार
 ३, १३; नाप ५, १५.

a) प्र १०, ९०, ४ । b) तैत्ति १०, ११, १ । c) 'प्राणः' इति अथ्या. । d) मा १६, ३ । e) मा ३१, १८ ।
 f) ष्वः इति शांका ६, १४ । g) तैत्ति १०, १, ७ । h) तैत्ति १०, १२, १ । i) ष्वः इति तैत्ति १०, ११, १ । j) मा
 १६, ३ । k) ष्वः इति प्राण. । l) तैत्ति १०, १२, १ । m) मा ३२, २ । n) तैत्ति १०, १, १ । o) ष्वः इति निशा.
 मुन. यति. पु-गोषः (पु. ना. ३) । p) प्र १०, ९०, ६ ।

पुरुष-देव(त्वं)त्या- -त्या अ १.
 पुरुष-नाय- -यः छां ६, ८, ३, ५.
 पुरुष-प्रयत्न-साध्य- -ध्यम् सु २,
 १, १.
 पुरुषप्रयत्नसाध्य-वेदान्तश्रव-
 णादि-जनित-समाधि-
 -धिना सु २, १, १.
 पुरुष-बहुत्व- -त्वम् सांख्य १, १४५;
 ६, ४५; सांका १८.
 पुरुष-युग- -नान्(इत्^b) अशि ७, ७;
 महा ६, ८३.
 पुरुष-रूप- -पम् बृ ४, २, ३; सुत्र
 ३: मं १, ४, १.
 पुरुष(प-श्र)र्षभ- -भ गी २, १५.
 पुरुष-वचस- -चसः छां ५, ३, ३;
 ९, १.
 पुरुष-वश्य-कर- -र अत्र ५.
 पुरुष-वाच- -वाचः बृ ६, २, २.
 पुरुष-विद्- -विदः मैत्रि ६, ३३.
 पुरुष-विद्या- -द्यायाम् ऋ ३, ३,
 २४.
 पुरुष-वि(धा)ध- -धः तै २, २-५,
 १^c; बृ १, ४, १.
 पुरुषविध-ता- -ताम् तै २,
 ३-५, १.
 पुरुष-विमोक्ष-निमित्त- -त्तम्
 सांका ५७.
 पुरुष-विशेष- -वः योसु १, २४.
 पुरुष-व्याघ्र- -घ्र गी १८, ४.
 पुरुष-दारीर- -रे प्रा १, ११^d.
 पुरुष-संज्ञा- -ज्ञः मैत्रि २, ५.
 पुरुष-संज्ञक- -कः मं २, ५.
 पुरुष-संहिता- -तायाम् सुत्र १, १.
 पुरुष-सूक्त- -क्तयम् सुत्र २; -क्ता-
 भ्याम् सुत्र २; -क्तेन नाप ४, ३८.
 पुरुषसूक्ता(क-श्र)र्ष- -र्षः सुत्र

१, १; -धम् सुत्र ४.
 पुरुषसूक्तार्थ-निर्णय- -यम्
 सुत्र १, १.
 पुरुषसूक्तो(क-उ)पनिषद्-
 रहस्य-प्रकार- -रम् नाप २.
 पुरुषा(प-श्र)ग्नि- -ग्नौ बृ ६, २, १६.
 पुरुषा(प-श्र)ग्मक- -कः तेषु ६, ६८.
 √पुरुषाय
 पुरुषायित- -तम् सार २४३: १०.
 पुरुषा(प-श्र)यण- -णाः प्र ६, ५.
 पुरुषा(प-श्र)यतन- -नम् छु १०^f.
 पुरुषा(प-श्र)र्था- -र्थाः सांख्य ६, ७०^g;
 सांका ३१; ऋ ३, ४, १; -थम्
 मन्त्रि ४; चू ४; सांख्य २, ३६;
 ३, १६; सांका ६३; -थाः भा ४;
 -थेन भव १, ४४.
 पुरुषार्थ-चतुष्टय- -ये सार २, ९९.
 पुरुषार्थ-ज्ञान- -नम् साका ६९.
 पुरुषार्थ-त्व- -त्वम् सांख्य १, ३.
 पुरुषार्थ-वाद- -दः ऋ ३, ४, २.
 पुरुषार्थ-शून्य- -न्यानाम् योसु
 ४, ३३.
 पुरुषार्थ-हेतुक- -कम् सांका ४२.
 पुरुषा(प-श्र)वेश- -शः सार २४६:
 १०.
 पुरुषा(प-श्र)श्मन्-
 पुरुषाश्मन्-वत् ऋ २, २, ७.
 पुरुषा(प-श्र)सक- -क्तः सार
 २४६: १२.
 पुरुषो(प-उ)च्छि(त)ता- -ताम्
 सि ६, ११६.
 पुरुषो(प-उ)त्तम- -म गी ८, १;
 १०, १५; ११, ३; -ममैत्रि ३, २४;
 १ शोत २; १३१; ता २, ४; हे १२;
 छु २; २५^h; राधा ४, १; सार
 २२७: १४; २३१: १; २३८:

१८; २४०: १८; २४१: २१;
 २४६: ८; २५२: १८; २५५:
 १७; २६२: ४; २८९: ११; भव
 ३, ६; गी १५, १८; -मम् म ४८:
 १३; रशिसं २०; २१; गी १५,
 १९; -मस्य सार २२०: ३; २२१:
 ७; २६२: ६; -मात् छु ३; ४ⁱ;
 ५^j; ७^k; ८; ९^l; १०^m; ११ⁿ; १२^o;
 १३^p; २२-२४; -माय त्रिवि ७,
 ४१.
 पुरुषोत्तम-तत्त्-पर- -रः २ योत
 २, २.
 पुरुषोत्तम-रसिका(क-श्र)-
 नन्द- -न्दः सार २४०: ७.
 पुरुषोत्तमरसिकानन्द-
 रमणा(ण-श्र)धिष्ठान- -नम्
 सार २४५: १.
 पुरुषोत्तम-रूप- -पेण गोच ६९:
 १५.
 पुरुषोत्तम-संज्ञा-
 पुरुषोत्तमसंज्ञित- -तः सार
 २२०: २.
 पुरुषोत्तमा(म-श्र)धिष्ठान- -नम्
 सार २२१: २.
 पुरुषोत्तमो(म-उ)त्तम- -मम्
 नाप ९; १७.
 २ पुरुष- -पम् शि ६, १६.
 पुरुची- पुर- द.
 पुरोः^q मना २, ६८.
 १-२ पुरोग- , पुरोगा- , पुरोगाय- ,
 पुरोषत्- , पुरोषाय, पुरोनुवा-
 क्या- , पुरोवात्- , पुरोहित-
 √पृ द.
 १ पुरुषक-
 पुरुषि(त)ता^r - -ते-ते व
 ४४९: ५.

a) °प्यः इति अश्या. संटि. । b) पा. इति. शोषः द. । c) °धः इति सात. । d) °पः तां इति निता. °पसां इति अश्या. च यति. शोषः द. । e) रहस्य- इत्येतदीयं विप. (वैतु. अश्या. °रति इति !) । f) हृदयां इति अश्या. । g) उत्त. गमितः कस. । h) व्यु. इ. पुंन्याम्- । i) पा. इ. 'पुनर भोम्' इति शोषः ! [विदु. सा. (तैत्या १०, २९, १) पुर-> पुरः भोम् इति] । j) व्यु. इ. रीमन्- । k) पा ५, २, ३६ ।

२पुलक^१- -कम् वृजा ३, १९; -कैः वृजा ३, २०^१; २१.

पौलक- -कम् वृजा ३, २४.

पुलस्ति^२-

पौलस्त्य^३- -स्त्यः सार १, ७.

पौलस्त्य-सूदन- -नम् सार १, ७.

पुलिन^४-

पुलिन-निलीन- -नाः सार २८१ : १०.

पुलिन्द^५- -न्दस्य सार २६० : ६.

पुलिन्द-नाण- -गाः सार २५९ : १३; १४.

पुलुप^६-

पौलुपि^७- -पिः छां ५, ११, १; -पिम्य छां ५, १३, १.

पुलोमन्^८-

पौलोम- -मान् कौ ३, १९^६.

पुलक(न>)सी^९- -सी नाप ३, ५०.

पौलकस- -सः वृ ४, ३, २२; पदं ४; अ २^१; ते ६, २५; त्रिता ५, १.

√पुष्प, >पोषि, पुष्यति वृ १, ४, १३;

पि १४; व ४५९ : २१९^१;

पुष्यति वृ ६, ४, २७९^१.

पुण्यामि गी १५, १३.

पुष्यासम् वृ ६, ४, २४.

पोषय-पोषय दत्ता २^१; पोष-वेत्त योशि १, १२२.

पुष्यस^१- -प्यान् श १६.

पुष्यन्त^२- -न्तः पा ९, ५.

पुष्ट, षा- -ष्टः राष्ट्र ४, ९; -ष्टम् सार २२७ : ६; त्रि ६, २०४; -ष्टा योशि १, १६; त्रि ६; -ष्टाः सु २, ३, ४५.

पुष्टि- -ष्टिः मना २, ६४१९^१; अशि ३, २; सौ १, ३; वट्ट ३१५ : २;

-ष्टिम् मना १, ८९^१; २, ६३९^१;

६७९^१; पा ८, ८; सु २९३ : ७;

कालि ४०२ : २; -न्त्यै पा ८,

२; ९, ८.

पुष्टि-काम- -मः मना २, ६७९^१;

सूता १, २१.

पुष्टि-द- -द अत्त ५.

पुष्टि-पति- -तिः मना २, ६७९^१.

पुष्टि-मत्- -मान् छां ५, १६, १.

पुष्टि-वर्धन^१- -नम् मना २,

५६९^१; त्रिता १, ८९^१; ४, ९;

१०९^१; २शिसं २४९^१; ९^१व

४३० : १; ४३८ : १६; ४३९ :

४; १३; २३; ४४० : ११; २१;

४४१ : ८; १९; ४४२ : ७;

१८; ४४३ : ४; १५; ४४४ : ८;

१८; ४४५ : ६; १६; ४४६ :

४; १५; ४४७ : २; १३; ४४८ :

१; १३; २३; ४४९ : ११; १८;

४५० : २; ९; १६; २३;

४५१ : ९; १६; २३; ४५२ : ८;

१६; २३; ४५३ : ६; १२; १८;

४५४ : ७; ७; १५; २१; ४५५ : ५.

पुष्टि-वृद्धि-कर- -र अत्त ५.

पोष(रै->)रायः)- -यम् अ १, ११;

त्रिता ४, २५; ना ३; -पयस्य वपू

१, ६; ७.

पोषण-

पोषणा(ण-अ)थे- -थम् सी १८.

पोषणा(ण-आ)दि- -दि त्रिन्ना

२, ८६.

पुष्कर^१- -रः अ १; मै ५, २; मैत्रि ६,

२; -रम् अशि १, ८; मै ५, २;

मैत्रि ६, २; -रै अवि १५^१;

अवि १५; मै ३, २; मैत्रि ३, २;

-रै-रै २२ ३२ : १.

पौष्कर- -रै वृजा ३, ७.

पुष्कर-पर्ण- -र्णे वृजा १, १; तृपूर १, १.

पुष्कर-पलाश- -शो छां ४, १४, ३.

पुष्कर-सज्- -सज्जा मना २, ४२९^१;

-सज्जी वृ ६, ४, २१९^१.

पुष्करा(र-अ)क्ष- -क्षम् २शिसं २३.

पुष्करि(न>)णी^१- -णी सार २२८ :

३; २६४ : २; ३^१; २८७ : १;

-णीः वृ ४, ३, १०; सार २२२ :

१७; -णीम् वृ ६, ४, २३; सार

२३३ : १; २५७ : ८; २६० : १४;

-णीषु सार २२८ : २; -ण्यः वृ

४, ३, १०; सार २२४ : २३;

२२५ : १; २५८ : ९; २६४ : २;

२६६ : २०; २६९ : ५; २८१ : ७;

-ण्याम् सार २४० : १४; २५६ :

१; २६७ : १८; २७१ : ११;

२७६ : १५; २३.

पुष्करे(र-ई)क्षण- -णाय चा २०.

पुष्कल, ला^१- -लाभिः गी ११, २१;

-ले त्रिता ५, १५; -लैः ससा १, ७.

पुष्प^२- -प्यम् छां ३, १, २; २-५, १;

ते ६, २२; मं २, २, ५; वट्ट २२;

आपू ४; शि ६, १०-२; ७, ४३; व

४५९ : २; वट्ट ६, ३; १७; गी

९, २६; -प्याणाम् वृ ६, ४, १;

सार २२२ : २३; -प्याणि वृ ६,

४, १; कौ १, ३; त्रिता ३, २६;

a) व्यु. ? = शुष्कगोमय- (=उपल-) । b) व्यु. ? = गोत्रप्रवर्तक-श्रेष्ठविशेष- । c) पा ४, १, १०५ । d) व्यु. ? = तोर- । e) व्यु. ? = पञ्चमवर्णाऽवान्तरविशेष- । f) व्यु. ? = देशविशेष- । g) °ला° इति शांभा ५, १ । h) वैपरी यद. । i) 'पौष्कसः' इति निशा. । j) अ १०, ८३, १ । k) अ १, १६४, ४९ । l) वैद. वे. पुष्यत्-> -प्यत् इति । m) वृ. सारय. त्रि. /पन्<पणन्त- । n) यनि. मुया. °ष्टः इत्यंशं शोषः द. (वृ. तैश्चात्रा १०, ६४) । o) तैश्चा १०, १, ८ । p) तैश्चात्रा १०, ६३ । q) तैश्चात्रा १०, ६७ । r) उच. उच. कर्त्तरी कृत् द. । s) अ ७, ५९, १२ । t) = द्रमल- । वैपरी यद. । u) °ले इति श्रान. मंदि. । v) °जी इति तैश्चा १०, ४०, १ । w) 'पुष्करछजा' इति अ १०, १८४, २ ।

सार २२२:७; २२५:७; २६६:६; २७१:८; वड ६, २९; -प्यात् महा ५, १७५; -प्ये च्या ७; ऋवि ३५; महा ५, १०७; -प्येपु वा २९; वड ६, ३०; -प्यैः सार २, ३४; सार २२२:२१; २२६:४; २३३:८; १२; २३७:१३; २४२:५; २६९:६; १९; शि ६, ४४.
 पुष्प-ना(न्ध>)=चा^१- =चा सार २४२:२१.
 पुष्प-गुच्छ- =च्छा: सार २२२:२२.
 पुष्पगुच्छ-संबलि(त>)ता- =ता: सार २२९:८.
 पुष्प-द्राम-युक्त- =धम्मि(ह>)- ह्या- =ह्याम् रा ४२४:२०.
 पुष्प-धूप^१- =यै: शि ६, ८१.
 पुष्प-धूप-गन्ध^१- =ग्यानाम् शि ६, ५९.
 पुष्प-धूप-भक्ष्यान्न-दधि-क्षीर-घृता- (त-आ)दि- =दिभि: शि ४, ३८.
 पुष्प-न(त्र>)घ्रा- =घ्रा: सार २८७:२३.
 पुष्प-पट्ट-संयुक्त- =क्तम् शि ६, २५६.
 पुष्प-पराग- =गै: सार २३३:१७.
 पुष्पपराग-परिधि- =धिम् सार २७१:१६.
 पुष्पपराग-परीत- =तौ सार २६५:९.
 पुष्पपरागो(ग-उ)द्ध(त>)ता- =ता: सार २६३:१४
 पुष्प-पहव- =वै: सार २३४:११.
 पुष्पपहवित- =ता: सार २३७:३.
 पुष्प-फल- =लम् आश्र ३.

१पुष्प-याण^१- =णा: सा २२७.
 २पुष्प-याण^१- =णाय नापु ४, ३.
 पुष्प-मण्डन- =नम् सार २६९:१२.
 पुष्प-मच्छ- =प्ये च्या ५; १योत १३६; २योत १, ८.
 पुष्प-माला- =ह्याम् सार २५५:१०.
 पुष्पमाला-परिक्षिप्त- =सम् शि ६, १३८.
 पुष्प-मिष्टा(ष्ट-अ)सृतमय-रस- =मन्न- =मा: सार २८७:२३.
 पुष्प-रस- =सान् सार २२५:२२.
 पुष्प-राग-मणि^१- =णिना सार २६५:२३; -णीनाम् सार २३९:२^१.
 पुष्प-राग-रधि(त>)ता- =ता सार २७१:१३.
 पुष्प-लता- =ता: सार २६६:११; -तानाम् सार २३२:१५.
 पुष्पलता-प्रधि(त>)ता- =ता: सार २६७:१३.
 पुष्पलता(ता-आ)सन- =ने रा २, १२.
 पुष्प-लता-पत्र-रवक्-पयस- =योभि: सार २६४:६.
 पुष्प-वत् ऋवि ३७.
 पुष्प-व(त>)ती^१- =ती सार २३८:१०; २६९:१३; २८२:१०.
 पुष्पवत्या(ती-आ)दि- =दय: सार २६८:१५; २७०:१०.
 पुष्प-वृष्टि- =ष्टिम् सार २६८:१५.
 पुष्प-शय्या^१- =य्याम् अक्षि १५; -श्यायाम् रा ४२४:२३.
 पुष्पशय्या-शङ्कारवत्-सखी- =सुख- =दावृ- =त्रे सार २५१:२१.
 पुष्प-हारा(र-आ)वली- =लीम् सार

२७१:८.
 पुष्पा(प-अ)ञ्जलि^१- =लि: वड ६, ३२; -लिम् त्रिवि ६, २१; २५; रार ४, ९; म २, २४.
 ?पुष्पाञ्जलियोगमूलमन्त्ररूप-पटलविहितकुसुमपरद्रव्यदान-तर्पण^१- =णम् तारा ८३:२५.
 पुष्पा(प-आ)धार-करणक- =कम् शि ६, ६०.
 पुष्पा(प-आ)राम^१- =मम् शि २, १८.
 पुष्पाराम-जली(ल-उ)पेत- =तम् शि ४, ११.
 पुष्पा(प-आ)वेश- =शैन सार २२९:३.
 पुष्पा(प-आ)श्रम-विभूषित- =ते शि ७, १२८.
 पुष्पि(न्>)णी- =णी: प्रा १, २४^१; -ग्याम् रा ४२४:१२.
 पुष्पित,ता- =ता सार २६६:६; =ता: सार २७१:४; =ताभि: सार २७०:४; =ताम् गी २, ४२.
 पुष्पित-वचन- =नेन स्व ६१:१३.
 पुष्पित-वृक्ष- =क्षाणाम् सार २६६:७.
 पुष्पित-वृक्ष-ल(त>)ता- =ता सार २३९:५.
 पुष्पक^१- =पुष्पको(क-उ)परि रा २, १४; ४५.
 पुष्प^१- =प्याय व ४३८:३.
 पौष^१- =पौष-पुर्णिम-पर्वन्- =वंगि शि ६, १४२.
 पुस्त^१- =पुस्तक- =कम् द १०; शि ७, ३५.
 पुस्तका(क-अ)क्षमाला-धारि- (न्>)णी- =णि हंपो ७.

a) कस. । b) 'सुखवर्णाः' इति निसा. संदि. । c) यस. =कामदेव- । d) 'प्यराग' इति मुपा. यनि. शोष: द. । e) पा. निप्रहय ? =योग:, *रूप:प(पा) टलम्, *मम्, पर-द्रव्य-दानम्, तर्पणम् इति पद्यदी ? । f) आ १०, ९७, १५ । g) व्यु. ? =निमानविशेष- । h) =नक्षत्रविशेष- । वैप१ यद. । i) =मासविशेष- (पा ४, २, ३) । j) व्यु. ? =ग्रन्थ- ।

पुस्तका(क-आ)दि--दीनाम् शि
६, २३९.

✓पू. > पावि, पोप्य, पवते सुं २, १,
६; तै २, ८, १; छौं ४, १६, १;
हृ १, ३, १३; ३, ९, ८; ९; वृपू २,
१४९; म २, ५; १०९; वष ४, ५.
पुनीते अव्य ७; पुनाति छां ४,
१६, १; अशि ७, ७; राव ५,
४; पैष्ठ, २३; महा ६, ८३; १ आ
१; २ आ ३; दत्ता ३; ता ३, ९;
च २१ : १२; १३; क ६४: १४;
योच ६९; ७; पुनन्ति मना २,
३८९; ३९९; ४०९; २शिसं
१६; पुनात मना १, १३९;
१४९; २, ३०९; प्रा १, ६९;
पुनन्तु मैत्रि ६, ९; मना १, १२९;
१४९; २, ३०९; ६४९; प्रा
१, ६९.

पावयेत् बि २६; पावयेत् मैत्रि
६, ९.

पवत्- अताम् गी १०, ३१.

१पवन- नात् मै ५, ७; मैत्रि
६, ७.

२पवन- -नः त्रिमा २, ११४; पै
३, ३; महा २, ६३; योशि १, ३५;
ए ६; यो ३, ३४; म २, ५; सु
२, २, ७६; गी १०, ३१; -नम्
योच ११४; शां १, ७, १४;
योशि १, ६३; यो १, २४; २५; २६;
३५; -नानाम् अम ४, २३; -ने
मना २, ३६९; योच ११४; -नेन
योशि १, १४७; यो १, ३६; ६६.

पवन-नन्दन- -०न सु १, १, ४५.

पवन-वेग-

पवनवेग-वत्- -नात् योशि
१, १४८.

पवन-व्यत्यय-क्रम- -मात् योच
११७.

पवना(न-आ)गम-ज- -०ज सु
२, २, ७२.

पवना(न-आ)भ्यास-तत्प(र>)-
रा- -रा १योत ६५.

पवना(न-अ)वच्छिन्नो(ज-ऊ)ध्व-
ज्वलन-सच्चिद्-उलका-
(स्का-आ)काश-देह- -हः भा
३६०.

पवमान- -९०न व ४२९ : १४;
४६२ : १७; -नम् योशि १,
११८; -नानाम् वृ १, ३, २८;
-नेषु शौ ५२ : १४; ५३ : १.

पवमान-पावक-शुचि- -चयः
मै ५, ७; मैत्रि ६, ३४५.

पवमानपावकशुचि-संघात-
-तः मैत्रि ६, ३४५.

पवि- -९विः ह १७; व ४४३ :
२२.

पवित्-

पवित्री- -०त्रि व ४३२ : १६;
४३६ : १८.

पवित्र, या- -०प्र अक्ष ५; -प्रः ह
१२; -प्रम् श्रे ६, २१; आरु २;
मैत्रि ६, ९; मना १, ११९; २, १२,
१९; २, १६९; ४०९; ७९९;
म २; ३, ३; अशि १, ८; नाप ३,

८२; ४, ३८९; मं ५, १, ९;
त्रिवि ७, ४९; ५९; पैष्ठ, ११; पप
४२०: ७; कुं ९; १०; पत्र ३, ६;
कह २; शा ७; नार २; ३; का
२; ४; वृप ८५ : ११; १३; पा
१, १०; ९, ९; सु २९३ : १४९;
१५९; १७९; लि ३०९: ६९;
९९; शि ७, ९०; ९९ व ४४२ :
२०; ४४८ : ३; ४५२ : १;
कथु ३, १; २; सांका ७०; गी ४,
३८; ९, २; १७; १०, १२; -त्रा
अता १२; -त्राः अता १२;
-त्रापाम् का २; नार २; -त्राणि
ह १५: १९; -त्रे मना १, १५९;
यो १, २२; २३; शि ७, ११;
-त्रेण मना १, ११९; त्रिवि ७,
४९; सु २९३ : १४९; वष ६,
४२.

✓पवित्रि, पवित्रयन्ति सु २९४:
२०; ह १; २.

१पावक-

पावका^१- -का सर २,
३९.

पावकी- -की शां १, ४.
२पावक^२- -कः त्रिवि ६८; जाद
४, ३९; भव २, ३९; गी २, ३३;
१०, २३; १५, ६; -कात् सुं २,
१, १; सु २८.

पावका(क-आ)कार- -रम्
सौ ३, १.

पावका(क-आ)रमक- -कम्
पं ५.

a) तैआ ८, ८, १। b) तैआ १०, ४८, १। c) तैआ १०, ४९, १। d) तैआ १०, ५०, १। e) तैआ १०,
१, १३। f) तैआ १०, १, १४। g) तैआ १०, २३, १। h) तैआ १०, १, १२। i) तैआ १०, १, १४। j) तैआ १०,
२३, १। k) तैआमा १०, ६४। l) भावे कृत। m) कर्नरि कृत = वायु- वा तदधिछायेदेव- वा। n) पा. ✓
> पावि > पाव(न>)नी-> -नीम् इति शोषः [ध. सधु. शौ. (१२, ७, १) 'पावमानु' इति, तत्रत्ये कीर्ति-> -र्तिम्
इत्युपरि वैग १ यस्या. टि. च]। o) 'दुष्कादाका' इति श्रज्या. संटि.। p) श्र ९, ६७, २१। q) 'पवमानः पावकः
शुचिः' इति सात.। r) 'पवमानः पावकः शुचिः संघातः' इति सात.। s) वैग १ य.। t) मंसा १, ७, १५। u) तैआ
३, १२, ३, ४। v) श्र ९, ९६, ६। w) तैआमा १०, १६। x) तैआ १०, ६३, १। y) पाट २, २, ११। z) श्र ९,
८, १। a') श्र ९, ९७, ४०। b') पाता ७, ३, ४५। c') श्र १, ३, १०। d') =अभि-।

पावन, ना--०न अक्ष ५; -नः मैत्रि
६, ७, १५; व २८; -नम् वृजा
२, ७; १५; महा ४, ६; ६, ३३;
म १, ५; गोच ६८ : २४; ६९;
९; व २९; -नाति गो १८, ५;
-नाम् दे ६; -ने महा २, ७७;
-०ने सु २, २, ३३.

पावनी--नी १संन्या २, ४४;
-नीम् ते १, ४३; तुल ७० : ५.

पावन-मानस--नसः महा २,
४७; अक्ष २, २६^{१०}.

पावन-सरस्--रसि सार २८९ :
९.

पावमान--नः मै ५, ७, १०.

पावयित्वा सिशि ३८१ : १५.

पुनत्--नन्तः नापू ४, ८९^६.

पुनान--नः वा १७

पूत, ता--तः छां ५, १०, १०; शृ ५,
१४, ८; मै २, ४; मैत्रि २, ४; ६,
२८; ३१; ७, ४; ६; कै २, ५; मना
१, ११०; अशि ७, ८; वृजा ७, १;
श ३६^१; त्रिवि ७, ४९^१; ८, १९;
रार ५, १७^३; वा ३८; सुद्र ४^१; पै ४,
२३; सू ८^१; २९; १अव ३३^१;

म १, ४; ११^३; २, २१; २२^३;
काला १८; वजा ३, १^३; गोच
२; वरा ५, ७६^१; ह १२^३; दत्ता
३; कलि ३^१; जावा २७; इ १४;
२३; का १५; नाव ३, ७^३; ८^३; ९^३;
वि ३३; सु २९३; १४९^३; २९५;
५; स ३८० : १^३; कलि ४०३ :

१०; गार ४०८ : १७, १८^३; १९;
-तम् मना २, ३०^१; सुवा १२;
म १, ३; ५; प्रा १, ६१^१; गोच
६७ : २३; -^१ता मना २, ३०;
प्रा १, ६; -नाः मना १, ११९^३;

त्रिवि ७, ४९^३; सु २९३; १५९^३;
गो ४, १०; -ताभिः कुं १२;
कृ ३; कशु ३, ३; -ते म १, ५.
पूत-पाप--पाः गी ९, २०.

पूयमान--नाः मना २, ४०^१.
पोपूयमान--नः पा २, ५.

पूग^१--गान् शि ६, ४७.

पूय-ताम्बूल-पत्र--त्राणाम् शि ६,
५३.

√पूज> पूजि, पूजयति वि ३२; पूजयेत्
स्क १०; मैत्रे २, १; शं १, ७, ३८^३;
योशि ५, ५७; त्रिता २, ७१; ३,
३४; वि १६; शि १, २६;
३५; ३, १३; ६, १३०; १४८;
७, २; ५; ४२; ७४; ७८; सुसु
१३; काम २१; कलि ४०२ :
१; चक ६.

पूजयेते वृजा ५, ८; गोच ६८ :
७; शि ६, ११२.

पूजन--नम् ते २, ३६; सूता १,
३६; वि २०; कलि ४०२ : १२;
४०२ : १३; श्या १६; व १,
२६; -नाव् राष्ट्र १, ५; हे ६;
काम ९.

पूजनीय--नः योशि ५, ५८;
म २, १; गोच ३६; हे ५.

पूजयत्--यन् शि ५, ४३; राष्ट्र २४ :
२, ४-६; ८; ११; १२; ४२५ :
२, ६; ९; १०; १३^३; १५; १८;
२०; सुसु १७.

*पूजया-

*पूजयाम(सु/अ)स(भुवि),
पूजयामास सिशि ३८३ : ३.

पूजयित्वा त्रिता २, ६८; सूता २,
२२; शि २, २३; राष्ट्र ५ : १६.

पूजा--ज्या वरा ३, १२; वि १;

-जा मैत्रे २, २६; नाप ६, ३३;
रापू १, १३; योशि २, २१; गोच
१६; तुल ७१ : १६; वि ४; ८;
शि २, ३; ३, १३; काम १९; गुपो
४२० : २; तारा ८३ : १३;

भव ५, १३; व ६, १५; -जाम्
सूता २, २३; तुल ७१ : १५;

शि ६, १२९; सुसु १६; १कौल
८ : ३; २कौल १४; -जायाः पी

४२२ : ५; -जायाम् काम १७.

पूजा(जा-अ)ङ्ग--ङ्गः व ६, १५.
पूजा-पीठ--ठम् रार ३, १^३.

पूजा(जा-अ)र्थ--र्थम् शि २, ४.
पूजा(जा-अ)र्ह--र्हम् ते ६, २२;

-हो गो २, ४.
पूजा-विधान--नम् सूता ४, १.

पूजाविधान-क--कम् सूता
२, २.

पूजा-विधि--धौ वि ७.
पूजा-साधन--नम् म २, ३.

पूजित, ता--तः राष्ट्र ४, २०^१;
नाप ३, १९; त्रिवि ५, १२; हे

१०; १४; रा ४२३ : १५;
४२४ : १७; -तम् शां १, ३, ३;

६; सिशि ३८२ : १८; -तयोः
व ६, ८; -ना रा ४२३ : १९;

२१^३; ४२५ : ४; ११; ४२६ : १.
पूजिता(त-अ)क्षत--त्तान् रा

४२५ : १६.
पूज्य^१ राष्ट्र ५, ६; शि ६, १; सिशि
३८२ : १७.

पूज्य, ज्या--ज्यः गो १, २२; ते
१, १९; नि ५५; वा ४०; राष्ट्र

४, ३९; जाद ४, २५; गोच ३३;
म २, २६; वि ७, २३; पित्र २,

३; व २, १३; गी ११, ४३^१;

अ) 'पावमानः' इति मै ५, ७ । b) पूर्णपा^० इति निवा. यनि. श्लोचः द. (तु. अख्या.) । c) 'पावनः' इति मैत्रि ६, ७ । d) अक्ष १०, ७१, २ । e) तैत्ति ३, १२, ३, ४ । f) ०ता (तु. तैत्ति १०, २३, १) इति निवा. यनि. श्लोचः द. । g) तैत्ति १०, २३, १ । h) अक्ष ४, ५८, ६ । i) ध्युः! =फलविशेषः (=मुपाति) । j) पा. १ ०ती इत्येवं श्लोचः द. (तु. अन्.) । k) पा ७, १, ३८ । l) 'विश्वरस्य' इति SCHR. पाठे. [यंतु. वे. (NIA २, २३१)] ।

पुस्तका(क-आ)दि--दीनाम्शि
६, २३९.

✓पू, >पावि, पोष्य, पवते सुं २, १,
६; तै २, ८, १; छां ४, १६, १;
शु १, ३, १३; ३, ९, ८; १; वृषू २,
१४९; म २, ५; १०९; वरुष, ५.
पुनीते अव्य ७; पुनाति छां ४,
१६, १; अशि ७, ७; राव ५,
४; पैष्ठ, २३; महा ६, ८३; १आ
१; २आ ३; दत्ता ३; ता ३, ९;
च २१: १२; १३; ऊ ६४: १४;
गोच ६९; ७; पुनन्ति मना २,
३८९; ३९९; ४०९; २शिसं
१६; पुनातु मना १, १३९;
१४९; २, ३०९; प्रा १, ६९;
पुनन्तु मैत्रि ६, ९; मना १, १२९;
१४९; २, ३०९; ६४९; प्रा
१, ६९.

पावयते मि २६; पावयेत् मैत्रि
६, ९.

पवत्--वताम् गी १०, ३१.

१पवन--नात् मै ५, ७; मैत्रि
६, ७.

२पवन--ना: त्रिमा २, ११४; पै
३, ३; महा २, ६३; योशि १, १३५;
ए ६; यो ३, ३४; म २, ५; सु
२, २, ७६; गी १०, ३१; नम्
योच् ११४; शां १, ७, १४;
योशि १, ६३; यो १, २४; २५; २६;
१५; -नानाम् अथ ४, २३; न्ने
मना २, ३६९; योच् ११४; न्नेन
योशि १, १४७; यो १, ३६; ६६.

पवन-नन्दन--०न सु १, १, ४५.

पवन-वेग-

पवनवेग-वत्--वान् योशि
१, १४८.

पवन-व्यत्यय--क्रम--मात् योच्
११७.

पवना(न-आ)रम-ज--०ज सु
२, २, ७२.

पवना(न-अ)भ्यास-तत्प(र>)-
रा--रा १योत ६५.

पवना(न-अ)वच्छिन्नो(अ-ऊ)ध्वं-
ज्वलन-सच्चिद्-उल्का-
(ल्का--आ)काया-देह--ह: भा
३६०.

पवमान--९०न व ४२९: १४;
४६२: १७; -नम् योशि १,
११८; -नानाम् वृ १, ३, २८;
-नेषु शौ ५२: १४; ५३: १.

पवमान-पावक-शुचि--चय:
मै ५, ७; मैत्रि ६, ३४.

पवमानपावकशुचि-संघात-
-त: मैत्रि ६, ३४.

पवि--९वि: ह १७; व ४४३:
२२.

पवित्-

पवित्री--०त्रि व ४३२: १६;
४३६: १८.

पवित्र, प्रा--०प्र अच् ५; -त्र: ह
१२; -त्रम् शे ६, २१; आठ २;
मैत्रि ६, ९; मना १, ११९; २, १२,
१९; २, १६९; ४०९; ७९९;
म २; ३, २; अशि १, ८; नाप ३,

८२; ४, ३८९; मं ५, १, १;
त्रिवि ७, ४९; ५९; पैष्ठ, ११; पप
४२०: ७; कुं ९; १०; पत्र ३, ६;
कह २; शा ७; नार २; ३: का
२; ४; वृष ८५: ११; १३; पा
१, १०; ९, १; सु २९३: १४९;
१५९; १७९; लि ३०९: ६९;
९९; शि ७, ९०; ९व ४४२:
२०; ४४८: ३; ४५२: १०;
कशु ३, १; २; सांका ७०; गी ४,
३८; ९, २; १७; १०, १२; -आ
अता १२; -आ: अता १२;
-आणाम् का २; नार २; -त्राणि
इ १५: १९; -त्रे मना १, १५९;
यो १, २२; २३; शि ७, ११;
-त्रेण मना १, ११९; त्रिवि ७,
४९; सु २९३: १४९; वरु ६,
४२.

✓पवित्रि, पवित्रयन्ति सु २९४:
२०; ह १; २.

१पावक-

पावका--का सर ३,
३९.

पावकी--की शां १, ४.

२पावक--क: ब्रवि ६८; जाद
४, ३९; भव २, ३९; गी २, २३;
१०, २३; १५, ६; -कात् सुं २,
१, १; सु २८.

पावका(क-आ)कार--रम्
सौ ३, १.

पावका(क-आ)रमक--कम्
पं ५.

a) तैमा ८, ८, १। b) तैमा १०, ४८, १। c) तैमा १०, ४९, १। d) तैमा १०, ५०, १। e) तैमा १०,
१, १३। f) तैमा १०, १, १४। g) तैमा १०, २३, १। h) तैमा १०, १, १२। i) तैमा १०, १, १४। j) तैमा १०,
२३, १। k) तैमा १०, ६४। l) भावे कृत्। m) कर्तारि कृत् = वायु- वा तदधिष्ठातृदेव- वा। n) पा. ✓पू
>पावि>पावन>नी->नीम् इति शेषः [द. सध. शौ. (१२, ७, १) 'पावमानु' इति, तत्रत्ये कीर्ति->-र्विम्
स्फुरति वैश्व यस्या. टि. च]। o) 'दुष्कृदाका' इति अज्या. संटि.। p) श्र ९, ६७, २१। q) 'पवमानः पावकः
शुचिः' इति गान.। r) 'पवमानः पावकः शुचिः संघातः' इति सात.। s) वैश्व यद.। t) मंसा १, ७, १५। u) तैमा
३, १२, ३, ४। v) श्र ९, ९६, ६। w) तैमा १०, १६। x) तैमा १०, ६३, १। y) पाट २, २, ११। z) श्र ९,
८१, १। a') श्र ९, ९७, ४०। b') पाता ७, ३, ४५। c') श्र १, ३, १०। d') =अति-।

पूर्व-दृष्ट, धा- -दृष्ट् अत्र ४, ५५;
-धात् नाप ४, ३.

पूर्व-देह-

पूर्व-वैदिक- -कम् गी ६, ४३.

पूर्व-द्वार- -नम् व ४२७ : २१; -रे
सूता ४, १.

पूर्व-निरोध- -धाव् ब्रह्म २, २, २०.

पूर्व-निष्पन्न- -ज्ञम् गौ ४, १८.

पूर्व-पक्ष- -क्षे कौ १, २.

पूर्वपक्षा(ज्ञ-अ)परपक्ष- -क्षयोः
वृ ३, १, ५; -क्षाभ्याम् वृ ३,
१, ५१.

पूर्व-पत्र- -त्रे सूता ४, ३.

पूर्व-पीठ- -डे व ४३० : १५.

पूर्व-पीठ- -तः १श्रोत १३३.

पूर्व-प्रज्ञा- -ज्ञा वृ ४, ४, २; निरु २, ५.

पूर्व-प्रतिष्ठित- -तम् त्रिता ३, ३२.

पूर्व-श्रोत्रपद¹¹⁰- -दाप व ४३८ : ८.

पूर्व-फलगुनी¹¹⁰- -त्यै व ४३८ : ४.

पूर्व-भाग- -नो मवि ८०; जादृ ४, १८.

पूर्व-भाव- -वात् ब्रह्म ४, ४, ७.

पूर्वभाविन्-

पूर्वभावि-स्व- -स्वे सांस् १,
७५.

पूर्वभावि-मात्र- -त्रे सांस् १,
४१.

पूर्व-मालिका- -काम् अत्र १४.

पूर्व-योनि-सहस्र- -स्राणि गर्भ ४^०.

पूर्व-योन्य(नि-अ)म- -रूप-

पूर्वयोन्यमरूपि(न>)णी-
-णीम् त्रिता २, ३५^६.

पूर्व-रूप- -पम् ते १, ३, १; २;
३; ४; अध्या २९^०; ग ८.

पूर्व-वर्ष जा ४; १श्रोत ४२; नाप
३, ७७; ४, ३८; रार २, ९; १२;
४५; ५३; ५५; ५७; ७१; १०२;

१०५; १संन्या १, १; पप ४१८:
१३; यो १, २७; ३०; ३७; कृ
१८; या १, १; सर ३, ३०; गुणो
४२१: ६; कश्रु १, १; सांस् ३,
४१; ५, ११२; १२३; ६, ५७;
ब्रह्म ३, १, २४; २, २९.

पूर्व-वासना- -नया योशि १, १४१;
वरा ४, ४०^१.

पूर्व-विकल्प- -ल्पः ब्रह्म ३, ३, ४५.

पूर्व-संन्यासिन्- -सी नाप ३, १;
या २, १.

पूर्व-सिद्ध-सरव- -स्वस्य सांस् ५,
५९.

पूर्व-स्थित- -तः शि २, १.

पूर्व-हेत्व(तु-अ)भाव- -वात् ब्रह्म
३, ३, ६०.

पूर्वा(र्व-आ)चार- -क्रमा(म-आ)-
गत- -तम् महा ५, ३८.

पूर्वा(र्व-आ)दिक- -कम् पी ४२२: ७.

पूर्वा(र्व-आ)दि-दिग्- -दिशि तारा
८४: २.

पूर्वा(र्व-आ)दिष्ट- -दृष्ट् व ४३० : १२

पूर्वा(र्व-आय>)घा- -घासु राप् ५,
३.

पूर्वा(र्व-अ)पर- -रे योशि ५, ४३.

पूर्वा(र्व-अ)परिज्ञान- -नम्
गौ ४, २१^६.

पूर्वा(र्व-अ)ष्ट-हस्त- -स्तम्
शि ४, १.

पूर्वा(र्व-अ)पाय- -न्ये सांस् १, ३९.

पूर्वा(र्व-अ)भिमुख- -खः महा १, १.

पूर्वा(र्व-अ)भ्यास- -सस्य शां १,
७, १७; -सेन गी ६, ४४.

पूर्वा(र्व-अ)घ्राय- -यः म ४८: १२.

पूर्वा(र्व-अ)जित- -तानाम् १श्रोत
६३.

पूर्वा(र्व-अ)र्धे- -धेः वृ १, १, १; -धैम्
अता ८^४.

पूर्वा(र्व-अ)वसान- -नयोः वृजा ४, ५.

पूर्वा(र्व-अ)वस्था-प्रय- -यम् अत्र
५, ८७.

पूर्वा(र्व-अ)वादा^४- -दायै व ४३८: ७

पूर्वा(र्व-अ)ह- -हो ह्यं ५, ११, ७;
सूता १, १४^१; भव १, ३८.

पूर्वाह-का(लक>)लिका- -का
गार ४०६ : १६.

*पूर्वै

*पूर्वै-द्यु-

पूर्वैपुस^(>) १संन्या २,
६७; इ १४ : ८.

पूर्वा(र्व-उ)क, का- -क्तया सार
२३३: ४; -क्तायाः त्रिता १, ६७;
-केन यो १, ५३; -कैः वरा १, ७.

पूर्वाक-क्रम-

पूर्वाकक्रम-शास(>) अता
२२^६.

पूर्वाक-ज्ञान-संयुत- -तः त्रिता
२, ८९.

पूर्वाक-तत्त्व-ज्ञात- -तानाम्
वरा १, १५.

पूर्वाक-त्रि-कोण-स्थान-
-नात् यथा ९५.

पूर्वाक-पात्र- -त्रे वृजा ३, ११

पूर्वाक-प्रह-यज्ञ- -क्रम- -मम्
पाशु १, ३१.

पूर्वाक-मन्त- -न्तानाम् रार
३, १.

-पूर्वाका(क-आ)मन- -ने शो
१, ५.

पूर्वा(र्व-उ)त्तर- -रागाम् २प्र ३४ :
१२; -रे त्रिता २, ३५; -रेषु
सु १, १, ४१; -रैः त्रिता २, ७.

a) उप. <√/पा(पाने) । b) =नस्रप्रविशेष- । c) नानाबो^० इति ज्ञान., अघ्या. । d) पूर्वै यो^०

इति अघ्या. संटि. । e) 'पूर्वपूर्वम्' इति अघ्या. । f) पुनर्वा^० इति निजा. यत्रि. बोधः द्र. (द्र. अघ्या.) ।

g) 'परप' इति संटि. । h) 'धैतारकम्' इति निजा. । i) तैत्रा ३, १२, ९, १ । j) वृ. वेप १, २५०d, c, f ।

k) 'कं क्र' इति ज्ञान. ।

-ज्यम् शि ७, ३५; -ज्या हे १४;
 -ज्याः नापू ६, ६; सार २३६ः
 १७; २५० : ८; पी ४२२: १०;
 १५; सुसु १६; -ज्यैः रापू ५,
 ७; -ज्यो रापू ३, १.
 पूज्य-तपस्विन्- -स्विनाम् रु
 १७.
 पूज्य-यदायो(र्थे)-उक्ति-परिभा-
 पा-सामन्वित- -तः भव २,
 ५२.
 पूज्य-युजा-विवर्जित- -तः अक्ष
 ५, १००.
 पूज्यमान, ना- -ना सी ३७; -नाम्
 वि १; -ने अध्या ४७.
 पूत- √पू. द.
 पूत(न>)ना^०-
 पूतना-जीविता(त-अ)न्त- -न्ताय
 गोपू ४१.
 पूतिमाप^०-
 पौतिमान्य^०- -व्यः वृ २, ६, १^३;
 ४, ६, १^३; -व्यात् वृ २, ६, १;
 ४, ६, १.
 पौतिमापी-
 पौतिमापी-युत्र- -त्र वृ ६,
 ५, १.
 पूंपूम्^० पा २, ५.
 √पूय्-पूयिवृ ५, १२, १; छाग २५:
 १४.
 पूति- -ति मव ४, १३; गी १७, १०.
 पूति-भाव-प्रसक्ति- -क्तेः सांस्
 ५, ११४.

पूति-भाव-योग- -गात् सांस्
 ६, ६०६.
 पूय-य^०- -यः भ २, २१.
 पूयमान- √पू. द.
 पू-पूक- , पूयत्- , पूयित्वा,
 पूरित- √पू. द.
 पूरुय- पूरुय- द.
 पूर्य- √पू. द.
 पूर्य^०- -तम् श्वे २, ७१.
 पूर्व, वी^०- -वीः वृ १, ४, १^३; श्वे २, १६४^३;
 मना १, ३४^३; अशि ५, १४^३; गोउ
 १३; द्व २; २प्र ३५ : १६; सुता
 १, ११४^३; वृद्ध ३१६ : २१४^३;
 सांक्र ५१; -वैम् ई ४; क २, १,
 ६^३; तै ३, १०, ६; छां ७, ११,
 १^३; वृ ४, ३, १; १८; ६, २, ८;
 श्वे ३, ३४^३; ५, ६^३; ६, ५, १८;
 गी २, १६; मैत्रि ६, २१; नृपू २,
 १८४^३; अशि ६, १०; -वैम्-वैम्
 जाद ६, १५; -वैस्मिन् राधा १,
 २०; -वैस्य तै २, ३-६, १; -वैस्याः
 त्रिता १, ६०; -वैस्याम् भ २, २७;
 -वीं अ१; नृपू २, २; नृउ ३, १; गार
 ४०६: ६; -वीः कौ २, ८; १०^३;
 -वीणि क १; कथु २, ३; -वीत्
 लव्य ७१^३; -वीन् राउ ५, ४; वै
 ४, २३; सा ३, ९; -वीम् महा ६,
 ६६; त्रिता १, ७६; २, २६; व
 ४३०: १२; -वीयाम् गार ४०६:
 १२; -वै क १, १, ६; छां ६, ४,
 ५; वृ १, १, २; ४, ४, २३; ६, २,

७; कौ २, ५; मवा १०४^३; छाग
 २४: १७; २५ ३४ : ९; शि ६,
 ८३; ब्रह्म ४, १, १५; गी १०, ६;
 -वैण त्रिता १, ४०; ५९; २, १४;
 ४, १६; ३१; -वैभ्यः योसु ३, ७;
 -वैपाम् के १, ३; मैत्रि १, ११^३; योसु
 १, २६; -वैः शि ६, २२६; गी ४,
 १५^३; -वीं कौ १, ५^३.
 पूर्व-कर्मन्- -मैभिः शि ७, १२५.
 पूर्व-कर्म- -मेण शि ६, ८५.
 पूर्व-जन्म-कृता(त-अ)भ्यास-
 -सात् योशि १, १४३.
 पूर्व-जन्मा(न्म-अ)र्जिता(त-आ)-
 गस्- -गसाम् वृजा ५, १०.
 पूर्व-जन्मा(न्म-अ)र्जिता(त-आ)-
 त्मन्- -त्मना कुं २०^३.
 पूर्व-जन्मो(न्म-उ)पार्जित- -तानि
 चा ७.
 पूर्व-जाति^०- -तिम् यर्म ३^३.
 पूर्वजाति-ज्ञान- -नम् शां १, ७,
 ५२; योसु ३, १८.
 पूर्व-तर- -रम् गी ४, १५.
 पूर्वतरा(र-अ)घ-(ह>)श-
 -हाः वपं ३१३ : २.
 पूर्व-तस(ः) वार २७२ : १०; शि
 २, १७; ६, ७८.
 पूर्व-तारक^०- -कम् मं १, ३, ३.
 पूर्व-तारक-योग- -नाः अता ११^६.
 पूर्व-दल- -लम् ध्या ९३, २^३; स्ले
 हं ८; ध्या ९३, २; वि १.
 पूर्व-दिश- -दिशम् व ४२८ : ९.

a) 'पूज्य' इति आन. । b) °नः इति अत्र्या. संटि. । c) व्यु. इ = रावसीविशेष- । d) व्यु. इ = गोप्रवर्तव-
 श्चपि विशेष- । e) पा ४, १, १०५ । f) स्वरूपं व्यु. च ? । g) पाभे. संटि. द. । h) उप. । उप. <√पा(पाने) ।
 i) वैप१ यद. । j) पा. १ [ट्र. आन., सं. प्रय.; वैतु. निसा. (१२म)-पूर्व- (द्र. परि.) > -वंम् इति यतः सस्य. कृष्यते
 = प्रपु१ (वैतु. आन., सं. प्रय. °से [मपु१]), से <तद्- (वैतु. आन., सं. प्रय. <युष्मद्- इति), अक्षिपत्(१२)
 इति मुग. शोधय] । k) मना. वैप१ यद. । l) मा ३२२, ४ । m) 'पश्यत' इति त्रैया १०, १०, ३ । n) द्र. सस्य.
 टि. देव-> व्याः । o) कौ ३, १, १ । p) पा. १ °वां इति शोधयः द्र. । q) °वां इति निसा. यनि. शोधयः द्र. । r) श्र १,
 ११४, ५० । s) पा. १ °वंम् पृषाम् अप्रीनाम् इति शिपदः शोधयः द्र. । t) °नाम् इति निसा. यनि. शोधयः द्र. (द्र. मन्वा.) ।
 u) उप. = जम्मन्- । v) °तीः इति आन. । w) उप. = वतार- । x) 'पूर्वमागी वारकयोगः' इति निसा. ।
 y) °वं ६० इति निसा. ।

२३ ३६ : १६; गोच ६७ : १५;
 नाउ १, १६९^१; लि ३१० : ७;
 २शिसं ९; गार ४०६ : १४;
 गु १८; भव २, १५; वपू १, २;
 वउ २, २०; ३, ५; सांयु ५, ११२;
 म्रसू २, ३, १२; -वीम् तै २, २,
 १; छां ३, १५, ५; ५, १७, १; ७,
 २, १; ७, १; वृ ३, २, १३; ३२;
 ७, ३; ६, २, १६^३; ४, ५९^७; मना
 १, १४९^७; २, ३०९^७; सुभा ७;
 ९^३; ११^३; नाप ६, २७; २९;
 अय्य ६^३; आभ्या १; प्रा१, ६९^६;
 नापू ४, ६९^७; २३ ३२ : १०;
 नी १, १; २, १८९^१; शि ६,
 २१६; ७, २९; ९^३ व ४४३ : ६;
 ४४८ : १३; ४५२ : १७; गी १,
 १९; -व्याः तै २, १, १; छां १,
 १, २; ३, १४, ३; ४, १७, १; वृ ३,
 ७, ३; ८, ३; ४; ६; ७; ६, ४, १; खे
 २, १९९^३; मै १, ७; मैत्रि १, ४;
 मैत्रे १, २; म २, ५; गोच ६७ :
 १५; नापू ३, ४९^७; नाउ १,
 १६९^१; लि ३१० : ३९^१; वउ २,
 ३३; व ४३७ : १०९^१; -व्याम् के
 ३, ५; ९; प्र ३, ८; सुं १, १, ७;
 २, १, ५; तै ३, ९, १; छां ५, २१,
 २; वृ २, ५, १; ३, ७, ३; गी
 ३, १२; कौ३, १; मना १, १४९^७;
 २, ३६९^१; सुभा ५; त्रिना १९;
 शारी १; योशि ५, ४९; कुं ४;
 रजा १, ८; सार २२४ : ९; १३;
 २४८ : ९; २५२ : ६-८ : २५४ :

१९; २५७ : १९; २५८ : ४;
 २७६ : १६; २७७ : १९; २८० :
 २०; २८५ : १५; २८६ : १; शि ५,
 ३७; गु २६; गी ७, ९; १८, ४०;
 -व्यै वृ १, ५, १८; २, ५, १; मना
 २, ३९^७; ४९^७; ५९^७; ६७^७; त्रिवि
 ७, ४८; व ४६५ : ४९^७.
 पार्थिव- -०व भव २, २९; ५,
 १६; -वः अना ३१; योशि १,
 २७; ५, ३१; -वम् वृ ६, ३, ६९^३;
 मना २, ३९^७; त्रिना २, ४६;
 शि ३, १०; १२^३; सिशि ३८२ :
 २०; -वानि नापू ४, ५९^७; -वै
 १योत ८६.
 पृथिवी-कार्यै-कर्मै(मै-इ)न्दिय-
 विषय- -याः त्रिना १, ६.
 पृथिवी-क्षिप्तै- -क्षिते छां २, २४,
 ५; मैत्रि ६, ३५.
 पृथिवी-गुण- -णाः शारी १.
 पृथिवी-जय- -यम् १योत ८७.
 पृथिवी-तस(>) गोपू २५^५.
 पृथिवी-पति- -०ते गी १, १८.
 पृथिवी-पाल- -छाः भव १, २३.
 पृथिवी-भाग- -नो जाद ८, ५.
 पृथिवी-मय- -यः वृ ४, ४, ५.
 पृथिवी-मात्रा- -त्रा प्र ४, ८.
 पृथिवी-योग-
 पृथिवीयोग-तत्त्व(>) १योत
 ८७.
 पृथिवी-रूप- -पः नापू १, ४; -पम्
 ध्या ९६.
 पृथिवी-लोकै- -कम् वृ ३, १, १०.

पृथिवी-वनस्पत्या(ति-प्रा)दि-
 -दीनि गार ४०८ : १०.
 पृथिवी-ध्रि(त >)ता- -ताः मैत्रि ६,
 ११.
 पृथिवी-पद्- -पदः अत्र ६.
 पृथिवी-स्थान- -नम् त्रिना २,
 १३५; १योत ८५.
 पृथिव्यै(वी-अ)श- -शाः पै २, ५;
 शारी १; -नो त्रिना २, १४२.
 पृथिव्यै(वी-अ)धिपति- -तिः शि
 ४, ३०.
 पृथिव्यै(वी-अ)पू-तेजस- -जः वउ
 ४, ४१.
 पृथिव्यै(वी-अ)पू-तेजो-वाय्वा-
 (यु-आ)काश- -शम् सुभा
 १५९^५; -शाः मना २, ६६३^५;
 -शेषु शां १, ९.
 पृथिव्यस्तेजोवाय्वाकाश-धा-
 (द्वि-अ)शुक्र- -कैभ्यः शु २, ५.
 पृथिव्यै(वी-अ)पू-तेजो-वाय्वा-
 (यु-आ)काश-नाम्ध-रस-रूप-रूप-
 शै-शब्द-वाक्यानि(१वाक्पाणि)
 पाद-पायू(यु-उ)पस्थ-रवक्-
 चक्षुः-श्रोत्र-मिह्रा-प्राण-मनो-
 बुद्धय(द्वि-अ)हंकार-चित्त-
 ज्ञान- -नानि गार ४०७ :
 २१.
 पृथिव्यै(वी-अ)पू-तेजो-वाय्वा-
 (यु-आ)काश-श्रोत्र-रवक्-चक्षुः-
 त्रिह्रा-प्राण-वाक्-पाणि-पाद-
 पायू(यु-उ)पस्थ-मनोविकार-
 -राः भा १०^५.

a) तैषा ८, १, १। b) तैषा १, ३०, १। c) ऋ १०, १९०, ३। d) तैषा १०, २३, १। e) ऋ ७, १००, ३। f) लि ७, ५५, ११। g) मा ११, १। h) ऋ १, २२, १६। i) ऋ २, ४०, १। j) ऋ ८, ४४, १६। k) तैषा १०, १, १४। l) पा. १. $\sqrt{\text{मयू}} > \text{प्रथि-}$ (भा.प.) > -धिम इति शोधः स्यात् (तु. सधु. शो. (१२, ७१, १), कीर्ति- > -रिम् इत्युपरि वेपथ यस्या. टि. च]। m) तैषा १०, ३, १। n) तैषा १०, २, १। o) तैषा १०, ४, १। p) तैषा १०, ६७। q) तैषा २, १२, १। r) ऋ १, ९०, ७। s) ऋ १, १५४, १। t) उप. < $\sqrt{\text{सि}}$ (निवाते)। y) "पृथ्वी ततः" इति अण.। z) समाहारे द्वस.। w) "धिरवाप" इति निसा. "व्यापस्तेजोयापुराका" इति अण्या. च यनि. शोधः द.। x) निसा. (तु. तैषा १०, ५६, १) यनि. शोधः द. (तु. J.C.)। y) पा. १ यनि. शोधः द.। z) यनि. सधु गपू. (वृ ४८०) पादपायूपस्थ- इत्यत्र शोधः द.। a') स्थविकाराः इति अण्या., स्थानि मनोविकारः इति तात्पर्य।

पूर्वोत्तर-विधान-

पूर्वोत्तरविधान-तस् (>):

अता ८; में १,३,१९.

पूर्वो(र्व-उ)पत्ति- -त्ते. सांस् ३,८.

पूर्वो(र्व-उ)पद्म- -क्षम् सांका
४०.पूर्वो(र्व-उ)दित^०- -त्ते वृजा ३,८.पूर्व्य- -च्यम् क्षेत्र २,५९^०; ७.पूपन्^{१०}- -पणम् वृ१,४,१३; दे १९^०;

-०पन् ई १५; १६; वृ ५, १५,

१९^०; मैत्रि ६,३५९^०- -पा प्र सुंमां शां^०; वृ १, ४, १३; मना१, ९९^०; वृजा अशि अ वृषू

नाप सी श त्रिवि रार रापू शां

पप अक्ष सू १आ पाशु पत्र त्रिता

दे भा भग मवा गोपू लृ ह दत्ता

गुरु अवि पदं सि शां^०; पं१; रा४२३; १९^०; ९^०व ४४२; ८;

४४७; १५; ४५२; १; ४५५

६; पित्र शां^०.

दीष्ण- -णम् गार ४०७; ७.

पू(प>)पा^{१०}- -पा ध्या ५३; योचू

१७; १९; शां १,४; योशि ५,

२२; भा १४; जाद ४,७; १५;

२०; ३६; वरा ५, २५; -पाया:

जाद ४,१६.

पूपा-यतस्विनी-नाडी- -ह्यौ

त्रिमा २,७२.

पूपा-सरस्वती-मध्य- -व्ये शां

१,४.

पूच्छसू- / प्रच्छू द.

पूतना^०- -नासु ष ४६०; ६९^०.९^०पूतना-त्रिप्- -जितम् मना २,

१; ष ४६१; १४.

पृथक्^{१०} क२,१,१४; ३,६; छां५,११,५; १४, १^०; १८, १; वृ २,४,

१०; ४,५,११; गौ १,६; मैत्रि

६,३२; ते ४,२५; नाप ३,८६;

१अव २१; या २, ६; महा २,

७; -यक्-यक् प्र ३, ४; त्रिमा

२,८३; सी २४; रूढ २४; पत्र

२^०; सार २२३; १७; शि ६,

१२४; गौ १,१८.

पृथक्-चिह्नो(ह-उ)पलक्षित- -त्त:

जाद ५,११.

पृथक्-च्छा- -छा: गौ १८,१४.

पृथक्-स्व- -स्वम् गौ ३,१४; -स्वात्

मैत्रि ६,१४; -स्वेन गौ ९,१५;

१८,२१; २९.

पृथक्-स्थान- -नानि सार २५४:

२३.

पृथग्-उपदेश- -शात् प्र २,३,२८;

४,९.

?पृथग्भवनकल्पनालंकार^०सी ३७.

पृथग्-भाव- -व: ते ६, २३; महा

४,४६; -वम् क २,३,६.

पृथग्-भूत- -त्ते त्रिमा २,१

पृथग्-रूप- -पेण सार २३८; १९.

पृथग्-लक्षण- -णम् मैत्रि ६,२२.

पृथग्-वर्त्मन्- -र्त्मा छां ५,१४,१;

१८, २.

पृथग्-वाद- -दा: गौ ४,१४.

पृथग्-वि(धा>)ध- -धम् गौ १८,

१४; -धा:त्रिमा२,७६; गौ १०,५;

-धात् गौ २,१६; गौ १८,२१.

१पृथा^{१०}- -धाम् पा ६,६.२पृथा^०-पार्थ^०- -थं गौ १, २५; २,३; २१;

३१; ३९; ४२; ५५; ७२; ३,१६;

२२; २३; ४,११; ३३; ६,४०; ७,

१; १०; ८, ८; १४; १९; २२;

२७; ९, १३; ३२; १०, २४;

११, ५; १२, ७; १६, ४; ६;

१७, २६; २८; १८, ६; ३०-३४;

७२; -थं: गौ १, २६; १८, ७८;

-थस्य गौ १८, ७४; -थाय गौ

११, ९.

पार्थ-सारथि- -थये गोपू ३८.

पृथिवी^{१०}- -वि मना १, १०९^०; -वी

प्र २, २; ५; ४, ८; ६, ४; सुं २, १,

३; ४; २, ५; तै १, ३; १; ७, १;

२, १, १; २, १; ८, १; ३, ९, १^०; ऐ

१, २; ५, ३; छां १, १, २; ३, ७;

२, २, १; २; १७, १; ३, १२, २;

३; १९, २; ४, ६, ३; ११, १; ५,

६, १; १८, २; २१, २^०; ७, ६, १;

८, १; १०, १; वृ १, १, १; ३, २;

५, ११^०; २, २, २; ४, २, ५, १; ३,३, २; ७, ३^०; ९, ३; ७; १०; ४, ५,

३; ६, २, १, १; ४, १; २०; २२; मै

४, ४, १३; मैत्रि ५, १; ६, ३; गर्भ

१; ना १; मना २, ३०९^०; ३५९^०;७९^०; अशि २, १२; ६, ५;

अ२; वृजा १, १; वृषू २, २; वृषू ३,

२; सुवा १, २; ५, ७^०; १३; १४;

ते ३, १९; ५या ९; अवि ४,

१यौत ८^०; योचू ७२; त्रिमा १,

५; ९; पै १, १६; शारी १; अय्य

१; अय्या १^०; कुं १४; सावि१^०; म२, ११; जाद ८, ५; प्रा १,६९^०; गोपू २५; वरा १, ५; ५,१^०; आच ९; १२ ३१; १५;

a) ०विभागतः इति निशा., अय्या. संदि. । b) उप. = १उदित- । c) अ १०, १३, १ । d) वेपथे यद. ।

e) अ १०, १२५, २ । f) जा ४०, १, १५, १६ । g) जा ४०, १, १५ । h) अ १, ८९, ६ । i) अ १, ८९, ५ । j) स्यु ?

=दक्षिणारण्यनाडीविशेष- । k) अ १०, ८३, ४ । l) शौ ७, ६५, १ । m) अय्य. । वेपथे यद. । n) पा ?

०कल्पनालंकार(>)रा->रा इति शोधः इति कृत्वा गपू. (पृ ९८) अलं/ह/अलंघकार इति निर्देशः यनि.

ग-शोधः । o) स्यु ? = भूमि- । p) स्यु ? = यरुंनप्रमनी- । q) अ १, २२, १५ । r) तैत्र्या १०, २३, १ । s) तैत्र्या

१०, २५ । t) तैत्र्या १०, ६३, १ । u) ०वीम् इति अय्या. ।

२प्र३६: १६; गोच ६७: १५;
 नाउ १, १६९; लि ३१०: ७;
 २शिसं ९; गार ४०६: १४;
 गु १८; भव २, १५; वपू १, २;
 वउ २, २०; ३, ५; सांस् ५, ११२;
 मस् २, ३, १२; -वीम तै २, २,
 १; छां ३, १५, ५, ५, १७, १; ७,
 २, १; ७, १; वू ३, २, १३; ३२;
 ७, ३; ६, २, १६; ४, ५९; मना
 १, १४९; २, ३०९; सुवा ७;
 ९; ११; नाप ६, २७; २९;
 अव्य ६; अध्या १; प्रा१, ६९;
 नापू ४, ६९; २प्र३२: १०;
 नी १, १; २, १८९; सि ६,
 २१६; ७, २९; ९व ४४३: ६;
 ४४८: १३; ४५२: १७; गी १,
 १९; -व्या: तै २, १, १; छां १,
 १, २; ३, १४, ३; ७, १, १; वू ३,
 ७, ३; ८, ३; ४; ६; ७; ६, ४, १; ये
 २, १९; मे १, ७; मैत्रि १, ४;
 मैत्रे १, २; म २, ५; गोच ६७:
 १५; नापू ३, ४९; नाउ १,
 १६९; लि ३१०: ३९; वउ २,
 ३३; व ४३७: १०९; -व्याम् के
 ३, ५, १; प्र ३, ८; सुं १, ७;
 २, १, ५; तै ३, ९, १; छां ५, २, १,
 २; वू २, ५, १; ३, ७, ३; गी
 ३, १२; कौ३, १; मना १, १४९;
 २, ३६९; सुवा ५; त्रिवा १९;
 शारी १; योशि ५, ४९; कुं ४;
 रुजा १, ८; सार २२४: ९, १३;
 २४८: ९; २५२: ६-८: २५४

१९; २५७: १९; २५८: ४;
 २७६: १६; २७७: १९; २८०:
 २०; २८५: १५; २८६: १; सि ५,
 ३७; गु २६; गी ७, ९; १८, ४०;
 -व्ये वू १, ५, १८; २, ५, १; मना
 २, ३९; ४९; ५९; ६९; त्रिभि
 ७, ४८; व ४६५: ४९.
 पार्थिव- -०व भव २, २९; ५,
 १६; -व: अना ३१; योशि १,
 २७; ५, ३१; -वम् वू ६, ३, ६९;
 मना २, ३९; त्रिवा २, ४६;
 सि ३, १०; १२; त्रिवा ३८२:
 २०; -वानि नापू ४, ५९; -वे
 १योत ८६.
 पृथिवी-कार्य-कर्म(र्म-इ)मिदय-
 विषय- -या: त्रिवा १, ६.
 पृथिवी-क्षिप्त- -क्षिते छां २, २४,
 ५; मैत्रि ६, ३५.
 पृथिवी-गुण- -णा: शारी १.
 पृथिवी-जय- -यम् १योत ८७.
 पृथिवी-तत्स(>:) गोपू २५.
 पृथिवी-पति- -०ते गी १, १८.
 पृथिवी-पाल- -ला: भव १, २३.
 पृथिवी-भाय- -ये जाद ८, ५.
 पृथिवी-मय- -य: वू ४, ४५.
 पृथिवी-मात्रा- -त्रा प्र ४, ८.
 पृथिवी-योग-
 पृथिवीयोग-तत्स(>:) १योत
 ८७.
 पृथिवी-रूप- -प: नापू १, ४; -पम्
 ध्या ९६.
 पृथिवी-लोक- -कम् वू ३, १, १०.

पृथिवी-वनस्पत्या(ति-आ)दि-
 -दीनि गार ४०८: १०.
 पृथिवी-धि(त>)ता- -ता: मैत्रि ६,
 ११.
 पृथिवी-पद्- -पद: अच ६.
 पृथिवी-स्थान- -नम् त्रिवा २,
 १३५; १योत ८५.
 पृथिव्यं(वी-श्रं)दा- -शा: पै २, ५;
 शारी १; -नो त्रिवा २, १४२.
 पृथिव्य(वी-श्र)धिपति- -ति: शि
 ४, ३०.
 पृथिव्य(वी-श्र)पू-तेजस्- -ज: वउ
 ४, ४१.
 पृथिव्य(वी-श्र)पू-तेजो-वाध्वा-
 (यु-आ)काश- -शाम् सुवा
 १५; -शा: मना २, ६६;
 -शेषु शां १, ९.
 पृथिव्यसेजोवायवाकाश-व-
 (दि-अ)युक्- -केभ्य: शु २, ५.
 पृथिव्य(वी-श्र)पू-तेजो-वाध्वा-
 (यु-आ)काश-गन्ध-रस-रूप-स्पर्श-
 शब्द-वाक्यानि(इवाक्पाणि)-
 पाद-पापू(यु-उ)पस्थ-स्वक्-
 चक्षु-श्रोत्र-जिह्वा-घ्राण-मनो-
 बुद्धय(दि-अ)हंकार-चित्त-
 ज्ञान- -नानि गार ४०७:
 २१.
 पृथिव्य(वी-श्र)पू-तेजो-वाध्वा-
 (यु-आ)काश-श्रोत्र-स्वक्-चक्षु-
 जिह्वा-घ्राण-वाक्-पाणि-पाद-
 पापू(यु-उ)पस्थ-मनोविकार-
 -रा: भा १०.

a) तैआ ८, १, १। b) तैआ १, ३०, १। c) श्र १०, १९०, ३। d) तैआ १०, २३, १। e) श्र ७, १००, ३। f) सि ७, ५५, ११। g) मा ११, १। h) श्र १, २२, १६। i) श्र २, ४०, १। j) श्र ८, ४४, १६। k) तैआ १०, १, १४। l) पा. ? प्रयु > प्रथि-(भाप.) > -थिम् इति शोध: स्यात् (तु. सधु. शौ. (१२, ७१, १), कीर्ति- > -तिम् इत्युपरि वैपरी यस्या. टि. च)। m) तैआ १०, ३, १। n) तैआ १०, २, १। o) तैआ १०, ४, १। p) तैआ १०, ६७। q) तैआ २, १२, १। r) श्र १, ९०, ७। s) श्र १, १५४, १। t) उप. < / क्षि(निवाते)। u) 'पृथ्वी ततः' इति आन.। v) समहारे द्रस.। w) 'थिभ्याप' इति निसा. 'भ्यापस्तेजोवायुका' इति अज्या. य यनि. शोध: द्र.। x) निसा. (तु. तैआ १०, ५६, १) यनि. शोध: द्र. (तु. Jc.)। y) पा. ? यनि. शोध: द्र.। z) यनि. अनु गपू. (४ ४८०) पादपापूपस्थ- इत्यत्र शोध: द्र.। a') 'स्थविकारा: इति अज्या., 'स्थानि मनोविकार: इति तान्नि.।

पृथिव्य(वी-अ)पृ-तेजो-वाय्वा-
(यु-आ)काश(श-इ)च्छा-द्वेप-
सुख-दुःख-काम-मोह-विकल्प-
ना(ना-आ)दि- -दिभिः १आ
१?; २आ २.

पृथिव्य(वी-अ)रूज- -जे रापू ५, २^b.

पृथिव्या(वी-आ)दि- -द्विपु त्रिआ

२, २; -दीनाम् त्रिभि २, १२.

पृथिव्यादि-पञ्च-महा-भूत-

-तानि नाप ४, ३८.

पृथिव्यादि-पञ्च-वर्णक- -कम्

ध्या २५.

पृथिव्यादि-महा-भूत- -ता-

नाम् शारी १; -तेषु शारी १^१.

पृथिव्यादि-निवा(व-अ)न्त-

-न्तम् त्रिभि ६२.

१पृथु^१-

पृथु-नित(म्ब>)म्बा- -म्बाम् रा

४२४; २२.

पृथु-(स्तुक>)पृठुका- -कं वृ ६,

४, २१५^d.

पृथु(यु-उरका>)रक- -रकाय नापू

४, १९.

२पृथु^१- -युः भव १, २४.

पृथुक^१- -काम् वपू २, ५.

पृथ्वी^१- -ध्वी कै १, १५^d; मना २,

१५^b; २८५^१; ते ४, १७; योशि

४, १७; २३; त्रिआ १, ३०; कृपु

१५; व ४६१; ११५^१; वउ ३,

७, -ध्वीम् शि ६, २२८.

पृथ्वी-अ(दि-अ)पृक- -काय शु२, ५

पृथ्वी-धरा(र-आ)चारि- -र्यः म

४९; ३.

पृथ्वी-मण्डल- -ले वरा ५, ४.

पृथ्वीमण्डल-मुद्रा(श-अ)ङ्ग-

-ङ्गः गह ७.

पृथ्व्य(ध्वी-अ)पृ-तेजो(जस-अ)निल-

ख- -खानि श्वे ६, २१^१; -खे श्वे

२, १२^१.

पृथ्व्य(ध्वी-अ)पृ-तेजो-वाय्वा-

(यु-आ)काश-पञ्च-महा-भूत-

-तानि वउ २, ३३^१.

पृथ्वि^१- -क्षिभिः अह ३४५^१.

√पृपू

पृपत्^१-

पृपद्-आज्य- -ज्यम्, -ज्यस्य

वृ ६, ४, २४.

पृपदाज्य-प्लु(त>)ता-

-ताः शि ४, ४०.

पृष्ट, पृष्ट्वा √प्रच्छ द्र.

पृष्ट^१- -ष्टम् तै १, १०, १; वृ१, १, १, २;

३; मना १, १३५^१; २, २५^१; नाप

४, ३८५^१; वृजा ४, १९^१; शि ६,

१५१; व ४६१; १९५^१; पित्र

१, १०; -ष्टे सुं १, २, १०; मना

१, १५^१; वृजा ४, २४; २८; २९;

३१; ३४; अज २, २३; त्रि

७; वपं ३१२; ७; -ष्टेषु छां ३,

१३, ७^१.

पृष्ट-स(ः) वृ १, ५, ३; त्रिआ

२, ७२; शां १, ४; जाद ४, २०;

शि ६, १८१; व ४६५; १६;

गी ११, ४०.

पृष्ट-देस- -ने व ४५८; ७.

पृष्ट-पार्श्व- -श्वयोः जाद ४, १४^१;

-श्वे त्रिआ २, ३६; शां १, ३, २;

जाद ३, ३.

पृष्ट-भाग- -गायू सार २५०; २१;

-गो वृजा ४, २२; शां १, ४; ७;

५२; योशि ६, ८; वि १३; १६.

पृष्ट-मध्य-स्थित- -तेन जाद ४, १०

पृष्ट-वंश^१- -वाः गर्भे ३; योशि १,

११४^१.

पृष्टवंश-मख-गुल्फो(ल्फ-उ)दर-

नाभि-मेद्-कट्यू(टी-ऊ)ह-कपो-

ल-श्रोत्र-भ्रू-ललाट-नाहु-पार्श्व-

शिरो(रत्-अ)क्षि- -क्षीणि

१आ १.

पृष्टो(ष्ठ-ऊ)र्ध्व-

पृष्टोर्ध्व-स(ः) ऊ ६४; ९.

√पू>पारि, पुर, पूर, परि, परत-परत

२योत २, ३.

५^१पृथि मना २, ७३; चा २१.

पृथेते वृ १, ४, ३; २, १, ५; कौ ४,

६; पृथेन्ते त्रिआ २, ९९.

पारय मना २, १५^b; इ २०; २.

पूरयति मैत्रि ६, २६; पूरवेत् छष्ट;

१योत ३७; ३८; ११३; त्रिआ २,

१४३; योचू९५; शां १, ७, ७; योशि

१, ९७^१; यो १, २४; ३३; ३४;

३५^१; जाद ७, ११; वरा ५, ५९.

पार- -रम् क १, २, ११; ३, २; १;

प्र ६, ८; छां २, १३, १७, १३;

२६, २; मैत्रि ६, २१; २८; ३०;

अज ४, २३; ६४; भव २, १३;

-राव सुं २, ६२; -रे मवा ८^१.

a) निशा. अख्या. च मुपा. यनि. सु-शोषी । b) °वजस्वा° इति काचित्कः निशा. मुपा. यनि. सु-शोषी । c) वैपरी यद्र । d) 'सरस्वति' इति श्र १०, १८४, २ । e) व्युः? =राजविरोध- । f) व्युः? =चृष्ट-तण्डुल- । g) 'पृथिवी' इति आन., अख्या. । h) श्र १, १८९, २ । i) तैआ १०, २१, १ । j) °ध्ववाप्य° इति मुपा. यनि. शोषः द्र. (तु. आन. मंदि.) । k) °ध्ववाप्य° इति निशा. अख्या. च मुपा. यनि. सु-शोषी । l) 'महद्मू' इति मुपा. यनि. शोषः द्र. । m) तैआ १, २७, ५ । n) पाठ २, ८४ । o) तैआ १०, १, १३ । p) तैआ १०, १, ११ । q) तैआ ७, १०, १ । r) 'पृष्ट' इति अख्या. । s) तैआ १०, १, १ । t) °छपूर्व° इति अख्या. । u) पा? °धे इति शोषः द्र. (तु. अख्या.) । v) श्र १०, ७३, ११ । w) 'रेषयेत्' इति अख्या. । x) 'पराय' इति आन. । y) तैआ ३, १२, ७ ।

पार-दक्षिण- -दीनः १संन्या २,
९८.

पार-विवाजित- -तः कुं १६.

पारा(र-अ)वण- -णेत रा ४२४ः
१४.

पारायणिन्- -णी पारा १६.

पारा(र-अ)वार-

पारावार-पूर- -रः मवा ७.

पारावार-विद्- -विदः महा
५, १७७.

पारावारा(र-अ)नन्दरस-
निर्भर- -रैः सि ४, ४.

पारविष्णु- -ष्णवः इ १२:८.

१पुर^a- पुरः^b वृ २, ५, १८; मना १,
१५; २, ५५; सु २, २, ७४; इ
१६: ९; च्वा १८; व ४६४:
२५; वल ३, ८; ४०; पुरा^b क १,
१, २१; सुं १, १, २; ३, २, ११;
छां २, ९, २; २४, ३; ७; ११; ४,
१६, २; ४; ५, ३, ७; वृ १, २, ४;
२, १, १०; १२; ६, २, ३; कौ ४,
६; मना २, ८५; सु १, १; १अव
९; म २, १५; जाद ७, ३; गी
३, ३; १०; १७, २३.

पुरस(>)

पुर-पृ- -ता वृ १, ३, १८.

पुरश-चरण^a-

पुरश्ररण-विधि- -धिम्

रार ४, १; -धौ रार १, ९.

पुरश्ररण-सिद्धि- -दिः

रा ४२३: १२.

पुरश-चर्या^a-

पुरश्रर्या-विधि- -धिः दे

२०.

पुरस√क

पुरस-कृत(>)ता- -ताम्

सुसु ९.

पुरस-कृत्य मैत्रि ७, ८;

नाप ३, १६; ७; त्रिवि ५, १२;
७, १.

पुरस्ताद् क १, १, ११; सुं

२, २, ११; छां ३, ६-९, ४; ५,

२, २; ६, ८, ६; १०, १; ७, २५,

१; २; वृ १, २; मना १, १०५;

कौ २, १; मै १, १; मैत्रि १, २;

मैत्रे १, १; व २.

पुरस्तात्ताद् ग ४^a.

पुरःसर- -राणि श्वे २, ११.

१पुरो-ग^a- -नाम् शौ

५१: ७.

२पुरो-ग^b- -गः, गाय इ

१८: १९.

पुरो-गा- -गाः शौ ५१: ८;

५२: ५; -गाम् शौ ५३: ५.

पुरो-गाय^a- -यम् शौ ५२:

१८.

पुरो/धा

पुरो-घस^a- -घसाम् गी

१०, २४.

पुरो-घाय शौ ५१: २.

पुरो-हित^a- -त्म् २प्र

३६: १७५^a.

पुरो(रस-अ)नुवाक्या^a-

-न्वया वृ ३, १, १०; -क्या वृ ३,

१, ७; १०^a.

पुरो-वात- -तः छां २, ३, १.

पुरा

पुरा-कल्प- -ल्पे श्वे ६, २२;

गु ७५.

पुराकल्प-प्रचोदित-

-त्म् अथ ५, ११९.

पुरा-कल्पित-मन्त्र^a-

पुराकल्पितमन्त्र-भय-

पुराकल्पितमन्त्रमय-

शुद्धमहावेजोमय-निरतिवाया-

नन्दमय-महा-विष्णु-सा-

रूप्य-विग्रह- -हम् त्रिवि ५,

१२.

पुरा-कृत- -त्म् मै ४, २;

मैत्रि ४, २.

पुरा-तन- -नः कै २, १;

त्रवि १००; त्रिवि १, २; वि १५;

वज २, २९; गी ४, ३.

पुरावनी- -नी वरा ४,

१६^a.

पुरा-विद्- -विदः सार

२१९: ७; २२०: १३; २३१:

१; २४५: १७; २५८: १५;

-विद्धिः यो १, ९.

२पुर^a- पुरः ऐ ४, ५५^a; वृ २, ५,

१८^a; त्रि १; लि ३११: ८;

पुरम् क २, २, १; अठ १०५^a;

२५५^a; प्र ८, ५, ३^a; मना

२, १५^a; व ४६१: ११५^a; अठ

१२५^a; पृष्ठे वृ २, ५, १८.

पुर-अम- -मे वा ९, ८.

पुरि

पुरि-शय- -यः वृ २, ५, १८;

-यम् प्र ५, ५.

१पुर^a-

पुर-त्स(>) क १, १, १८; वृ २,

३; ६, ३; ८, ४; ९, १०; १८;

त्रिवा २, ७२; अव्य ६; मर ३,

१९; शि ४, १; ६, १८१; १८४;

७, २०; २१.

पुरतः-शिवठा(त-अ)नन्त-

दिव्य-सीर्थ- -र्यानाम् सि ६, २६.

. a) =अम- । वैप १ यद. । b) अव्य. । c) श्र १०, १५२, २ । d) 'प्रोवाच' इति तेषां १०,
६, १ । e) मा १३, ३ । f) 'पुरस्ताद्' इति निता. । g) विप. । h) वेंस । i) उस. उप. √गौ+पृम् । j) श्र १,
१, १ । k) पुरःक^a इति मुषा. पुनःक^a इति मूको. च यनि. सु-शोघी । l) 'ना इति सप्ता. । m) =नगर- । वैप १,
यद. । n) श्र ४, २७, १ । o) तैच्वा १, २७, १ । p) तैसा १, २७, ३ । q) 'पूर्वमणः' इति निता. । r) श्र १,
१८९, २ । s) शौ १०, २, ३१ । t) वैतृ. माव. नैप्र. =पुरस-उसर इति ।

पृथिव्य(वी-अ)पृ-तेजो-वाय्वा-
(यु-आ)काश(श-इ)च्छा-द्वेष-
सुख-दुःख-काम-मोह-विकल्प-
ना(ना-आ)दि- -दिभिः १आ
१?; २आ २.

पृथिव्य(वी-अ)पृज- -जे राप् ५, २^b.

पृथिव्या(वी-आ)दि- -दिपु त्रिमा
२, २; -दीनाम् त्रिवि २, १२.

पृथिव्यादि-पञ्च-महा-भूत-
-तानि नाप ४, ३८

पृथिव्यादि-पञ्च-वर्णक- -कम्
ध्या २५.

पृथिव्यादि-महा-भूत- -ता-
नाम् शारी १; -तेषु शारी १^१.

पृथिव्यादि-शिवा(व-अ)न्त-
-न्तम् त्रिवि ६२.

१पृथु-
पृथु-नित(म्ब>)म्या- -म्याम् रा
४२४; २२.

पृथु-(स्तुक>)पुका- -कं वृ ६,
४, २१५^d.

पृथु(यु-उत्का>)वक- -क्याय नापू
४, १९.

२पृथु- -थुः भव १, २४.

पृथुक्- -कान् वपू २, ५.

पृथ्वी- -प्वी कै १, १५^e; मना २,
१५^b; २८५^f; ते ४, १७; योशि
४, १७, २३; त्रिमा १, ३०; कृषु
१५; व ४६१; ११५^g; व ३,
७; -ध्वीम् शि ६, २२८.

पृथ्वी-आ(दि-अ)णुक- -काय शु २, ५.
पृथ्वी-धरा(र-आ)चार्य- -यं: म

४९; ३.
पृथ्वी-मण्डल- -ले वरा ५, ४.

पृथ्वीमण्डल-मुद्रा(दा-अ)ङ्ग-
-ङ्गः गर ७.

पृथ्व्य(ध्वी-अ)पृ-तेजो(जस्-अ)निल-
ख- -खानि श्वे ६, २१^h; -खे श्वे
२, १२१ⁱ.

पृथ्व्य(ध्वी-अ)पृ-तेजो-वाय्वा-
(यु-आ)काश-पञ्च-महा-भूत-
-तानि व २, ३३^j!

पृथ्वी- -श्विभिः अर ३४५^m.

√पृथ्
पृथत्^l-

पृथद्-आज्य- -ज्यम्, -ज्यस्य
वृ ६, ४, २४.

पृथदाज्य-प्लु(त>)ता-
-ताः शि ४, ४०.

पृथ्-, पृथ्वा √प्रच्छ् द्र.

पृथ्- -थम् तै १, १०, १; वृ १, १, १; २,
३; मना १, १३५^o; २, २५^p; नाप
४, ३८५^q; वृजा ४, १९^r; शि ६,
१५१; व ४६१; १९५^s; विव्र
१, १०; -थे सुं १, २, १०; मना
१, १५^t; वृजा ४, २४; २८; २९;
३१; ३४; अज २, २३; त्रि
७; वपं ३१२; ७; -थेषु छां ३,
१३, ७^u.

पृथ्-वत्(>) वृ १, ५, ३; त्रिमा
२, ७२; शां १, ४; जाद ४, २०;
शि ६, १८१; व ४६५; १६;
गी ११, ४०.

पृथ्-देश- -क्षे व ४५८; ७.

पृथ्-पार्थ- -थ्योः जाद ४, १४^v;
-थे त्रिमा २, ३६; शां १, ३, २;
जाद ३, ३.

पृथ्-भाग- -गात् सार २५०; २१;
-गे वृजा ४, २२; शां १, ४; ७;
५२; योशि ६, ८; वि १३; १६.

पृथ्-मध्य-स्थित- -तेन जाद ४, १०

पृथ्-वंश^l- -वाः गर्भे ३; योशि १,
११४ⁿ.

पृथ्-वंश-मख-गुल्फो(ल्फ-उ)हर-
नाभि-मेद्-कट्यू(टी-ऊ)ह-कपो-
ल-श्रोत्र-भ्रू-ललाट-बाहु-पार्थ-
शिरो(रस्-अ)क्षि- -क्षीणि
१आ १.

पृथो(छ-ऊ)र्ध्व-
पृथोर्ध्व-त्स(>) ऊ ६४; ९.

√पृ> पारि, पुर, पूर, परि, परत-परत
२थोत २, ३.

पृथि मना २, ७३; चा २१.

पृथेते वृ १, ४, ३; २, १, ५; कौ ४,
६; पूर्वन्ते त्रिमा २, ९९.

पारथ मना २, १५^b; इ २०; २.

पूरयति मैत्रि ६, २६; पूरयेत् छ ४;
१थोत ३७; ३८; ११३; त्रिमा २,
१४३; योचू ९५; शां १, ७, ७; योशि
१, १७¹; यो १, २४; २३; ३४;
३५²; जाद ७, ११; वरा ५, ५९.

पार- -रम् क १, २, ११; ३, २; १;
प्र ६, ८; छां २, १३, १७, १, ३;
२६, २; मैत्रि ६, २१; २८; ३०;
अज ४, २३; ६४; भव २, १२;
-राय सुं २, ६२; -रे मवा ८५³.

a) निशा. अश्या. च मुपा. यनि. सु-शोषी । b) °वजस्वा° इति काचित्कः निमा. मुपा. यनि. सु-शोषः ।
c) वैपश् यद. । d) 'सरस्वति' इति ऋ १०, १८४, २ । e) व्युः? =राजविशेष- । f) व्युः? =पृथ-तण्डल- ।
g) 'पृथिवी' इति शान., अश्या. । h) ऋ १, १८९, २ । i) तैश्वा १०, २१, १ । j) °ध्याव्य° इति मुपा. यनि.
शोषः द्र. (तु. शान. मंति.) । k) °ध्याव्य° इति निसा. अश्या. च मुपा. यनि. सु-शोषी । l) °महद्भू° इति
मुपा. यनि. शोषः द्र. । m) तैश्वा १, २७, ५ । n) पाठ २, ८४ । o) तैश्वा १०, १, १३ । p) तैश्वा १०, १, १६ ।
q) तैश्वा ७, १०, १ । r) °पृथे° इति अश्या. । s) 'पृथे' इति अश्या. । t) तैश्वा १०, १, १ । u) °पृथ्वे° इति अश्या. ।
v) पाः? °ने इति शोषः द्र. (तु. अश्या.) । w) ऋ १०, ७३, ११ । x) 'रेचयेत्' इति अश्या. । y) 'पराय' इति
शान. । z) तैश्वा ३, १२, ७ ।

पार-दक्षिन्- -दक्षिन्: १संन्या २,
९८.

पार-विवर्जित- -तः कुं १६.

पारा(र-अ)ध्वज- -येन रा ४२४:
१४.

पारा(यगिन्- -गी पारा १६.

पारा(र-अ)वार-

पारावार-पूर- -रः मवा ७.

पारावार-विद्- -विदः महा
५, १७७.

पारावारा(र-अ)नन्दरस-
निर्भर- -रैः सि ४, ४.

पारविष्णु- -ष्णवः इ १२:८.

१पुर^a- -पुरः^b वृ २, ५, १८; मना १,
१५^०; २, ५५^०; सु २, २, ७४; इ
१६: ९; चा १८; व ४६४:
२५^०; वउ ३, ३८; ४०; पुरा^b क १,
१, २१; सुं १, १, २; ३, २, ११;
छां २, ९, २; २४, ३; ७; ११; ४,
१६, २; ४; ५, ३, ७; वृ १, २, ४;
२, १, १०; १२; ६, २, ३; कौ ४,
६; मना २, ८५^d; छ १, १; १अव
९; म २, १५; आद ७, ३; गी
३, ३; १०; १७, २३.

पुरस(>)

पुर-पृव- -ता वृ १, ३, १८.

पुरन्-चरण¹-

पुरश्चरण-विधि- -धिम्
रार ४, १; -शौ रार १, ९.

पुरश्चरण-सिद्धि- -द्धि:
रा ४२३: १२.

पुरन्-चर्मा¹-

पुरश्चर्मा-विधि- -धि: दे
२०.

पुरस/क

पुरस-क(त>)ता- -ताम्

सुसु ९.

पुरस-कृत्य मैत्रि ७, ८;
नाप ३, १६; ७; त्रिवि ५, १२;
७, १.

पुरस्तात् क १, १, ११; सुं
२, २, ११; छां ३, ६-९, ४; ५,
२, २; ६, ८, ६; १०, १; ७, २५,
१^१; २; वृ १, १, २; मना १, १०^१;
कौ २, १; मै १, १; मैत्रि १, २;
मैत्रे १, १; म २.

पुरस्तात्तात् य ४^१.

पुरः-सर- -रागि श्रे २, ११.

१पुरो-ना^a- -नाम् शौ
५१: ७.

२पुरो-ना^b- -ना; -नाय इ
१८: १९.

पुरो-गा- -गा: शौ ५१: ८;
५२: ५; -नाम् शौ ५३: ५.

पुरो-नाय¹- -यम् शौ ५२:
१८.

पुरो/घा

पुरो-धस^{१२}- -धसाम् गी
१०, २४.

पुरो-धाय शौ ५१: २.

पुरो-हित^१- -तम् २प्र
३६: १७^१.

पुरो(रस्-अ)नुवाक्या^१-
-क्याया वृ ३, १, १०; -क्या वृ ३,
१, ७; १०^२.

पुरो-वाव- -तः छां २, ३, १.

पुरा

पुरा-कल्प- -ल्पे श्रे ६, २२;
गु ७५.

पुराकल्प-प्रचोदित-
-तम् अथ ५, ११९.

१पुरा-कल्पित-मन्त्र^१-

पुराकल्पितमन्त्र-मय-

पुराकल्पितमन्त्रमय-

शुद्धमहतेजोमय-निरतिशया-
नन्दमय-महा-विष्णु-सा-
रूप्य-विग्रह- -हम् त्रिवि ५,
१२.

पुरा-कृत- -तम् मै ४, २;
मैत्रि ४, २.

पुरा-तन- -नः कै २, १;
अवि १००; त्रिवि १, २; वि १५;
वउ २, २९; गी ४, ३.

पुरावनी- -नी वरा ४,
१६^१.

पुरा-विद्- -विदः सार
२१९: ७; २२०: १३; २३१:
१; २४५: १७; २५८: १५;
-विक्रि: यो १, ९.

२पुर¹- -पुरः ऐ ४, ५५^०; वृ २, ५,
१८^१; त्रि १; लि ३११: ८;

पुरम् क २, २, १; अर १०५^०;
२५५^०; वृ छां ८, ५, ३^०; मना
२, १५^०; व ४६१: ११५^०; अर
१९५^०; वृ २, ५, १८.

पुर-अप्र- -अे पा ९, ८.

पुरि

पुरि-शाय- -यः वृ २, ५, १८;
-यम् प्र ५, ५.

१पुर^a-

पुर-तस^१(>) क १, १, १८; वउ
२, ३; ६, ३; ८, ४; ९, १०; १८;
त्रिप्रा २, ७२; अव्य ६; सर ३,
१९; शि ४, १; ६, १८१; १८४;
७, २०; २१.

पुरतः-स्थिता(त-अ)नन्त-
दिव्य-नीर्थे- -यानाम् सि ६, २६.

a) =अप्र-। वैप १ यद.। b) अव्य.। c) अ १०, १५२, २। d) 'प्रोवाच' इति तैश्वा १०,
६, १। e) मा १३, ३। f) 'पुरस्तात्' इति निसा.। g) विप.। h) वैसं। i) उष. उप. √सो+घञ्। j) अ १,
१, १। k) पुरःक^० इति मुपा. पुनःक^० इति मूको. च यनि. सु-शोघौ। l) 'ना इति अव्या.। m) =नगर-। वैप १
यद.। n) अ ४, २५, १। o) तैश्वा १, २७, १। p) तैश्वा १, २७, ३। q) 'पूर्वमहाणः' इति निसा.। r) अ १,
१८९, २। s) शौ १०, २, ३१। t) वैतु. प्रव. नैप्र. =पुरस-वस इति।

२पुरा-रम् ते २,१९;अध्या १०;
 योच् १०; त्रिवि ६, १६; १७;
 राष्ट्र २६; योशि ४,१६; अक्ष
 १,३४; शि १,३२; ५,२८; ६,
 ५८; १८५; १९३; गु ३२; ३४;
 -राणाम् त्रिता ४, ५; -रे प्र ४,
 ३; श्वे ३,१८; नाप ४,२१; वि
 १९; शि २,२१; ३,१४; ४,३४;
 ४२; ४४; ६,४; ६; १३; १८; ५२;
 ६७; ६९; ७७; ९८; १८०; १९८;
 २०३; २०४; २०७; २१८;
 २२६; २३७; २३९; २५३;
 २५८; २६९; २७२; गु ५०; गी
 ५,१३; -रे-रे शि ६,१४०.
 पुरी-री नाप ८, १; गोउ
 २१; -रीम् राष्ट्र ४, २७; अक्ष
 २२९^b; -राम् पप १९; ३१९^०.
 पुर्य(री-अ)ष्टक-कम्
 महा ५,१३२; १५३.
 पुर-भ्राम-प्राक्तन-संचार-रम्
 नाप २.
 पुर-अय-अयम् कै १,१४; व ८;
 -याणि सिशि ३८१; २१; -ये
 कै १,१४.
 पुर-नाश-शे लि ३११; ८.
 पुर-मण्डप-ये शि ६,१३९.
 पुर-मध्य-ध्वम् त्रि १०.
 पुरमध्य-संस्थ-स्थम् मना
 २,१२,३९^०.
 पुर-याचक-का: मैत्रि ७,८०.
 पुर-युक्त-केन शि ६, १०८.
 पुरा(र-अ)न्तक-क: कुं १७.
 १पुराण^a-ण: क१,३,१८; वृ४,४,
 ८; त्रिवि ९९; ए १,३; या२४;
 पा १, १; १६ ५; भव २, ३७;
 गी२, २०; ११, ३८; -णम् क १,

२,१२; वृ४,४,१८; ५,१,१; श्वे
 ३,२१; मना १,१९^०; ११९^b; अशि
 ५, ७; नाप ९, १७; त्रिवि ४,
 ७९^०; ७, ४९^b; महा ४, ७१; ए
 १३; सु २९३; १४; गी ८, ९;
 -णा: व ४३४; १; -णेन अशि
 ५, १९^१; वदु ३१७; ९.
 पुराणी-णी श्वे ४, १८;
 शां २, १; त्रि १; गी १५, ४.
 २पुराण^०-णम् वृ २, ४, १०;
 ४, १, ३; ५, ११; मैत्रि ६, ३२;
 ३३; ते ५, ४३; स्व ६०: ४;
 नाप ५, ३७; -णानि वृजा ८, ५;
 वृप ५, १८; योशि ३, ७; त्रिता
 १, ११; सार २८५; १४; वउ
 ५, १८; -णेपु ते ५, ८८; रार १,
 ३; -णै: सार २३१; १३.
 पुराण-क-के नाद २, १२.
 पुराण-ज्ञ-ज्ञ: द्व ६.
 पुराण-न्याय-मीमांसा-धर्म-
 शास्त्र-नीति-श्रवण-प्राण-
 कर्षण-कर्म-विशेष-पान्
 १आ १^१; २आ २.
 पुराण-पठि(त>)ना-ताम्
 तुल ७०: ४.
 पुराण-श्रवण-पूर्वक-कम्
 नाप ४, ३८.
 पुराण-पुरुष-पाव नाउ २, ९;
 -यै: त्रिवि ६, २३.
 पुराणपुरुषो(प-उ)त्तम-म:
 ता ३, ८.
 १पूरक^a-कम् त्रि ५.
 २पूरक^०-क: ते १, ३२९^१;
 ध्या २१; योच् १०१; अक्ष ५,
 २८९^१; जाद ६, १२९^१; वरा
 ५, १८^१; -कम् त्रिवि २१;

१योत ११५; त्रिभा २, १०८;
 योच् १०३; योशि १, १२७;
 जाद ६, १८; वरा ५, ५७; ५८;
 -कस्य अता १३; -केण ध्या ३०.
 पूरक-कुम्भक-कौ वरा ५,
 ६१.
 पूरक-कुम्भक-रेचक-कै:
 मं १, १, ६.
 पूरका(क-अ)द्य(दि-अ)-
 निला(ल-अ)याम-माव शां १,
 ७, २८.
 पूरका(क-अ)न्त-न्ते शां
 १, ७, ११; योशि १, १०९; यो
 १, ५१.
 पूरण-णम् त्रिभा २, ९४; -णाव
 त्रिभा २, ९९.
 पूरयत्-यन् तु ११^०; ध्या ७०.
 पूरयित्वा वृ ६, ४, १९; ध्या २०;
 शां १, ७, ४३; योशि १, ८७;
 जाद ५, ७.
 पूरित,ता-त: योशि १, १२१;
 १२२; -तम् ध्या ४८; ६९;
 १योत ४१; त्रिभा २, ९७; योच्
 ४०; ११४; शां १, ६^१; जाद ६,
 ४; ५; ८; वरा २, ३६; -ता: सार
 २२२; १३; -तायाम् सार २७१;
 १९.
 पूरित-स्व-स्वात् मवा ७.
 पूर्ण,णौ-णै: तै २, २-५, १; मैत्रि
 १, १^०; ते ५, ६१; त्रिवि १००;
 त्रिवि १, ११; महा २, ४७; अक्ष
 २, २६^१; अध्या ११; क१ १९;
 २०^१; २१; २२; काम १६; गु
 ४६; -र्णम् ईशां^१; छां ३, १२,
 ९; वृ शां^१; २, १, ५; ५, १, १^१;
 ६, ३, ४; श्वे शां^१; ३, १९^१;

a) नगर-। वैप१ यद.। b) तैत्र्या १, २७, ३। c) =मात्रविशेष-। d) तैत्र्या १०, १०, ३। e) ०^१
 इति सात.। f) वैप१ यद.। g) तैत्र्या १०, १, १। h) तैत्र्या ३, १२, ३, ४। i) ०^१णम् इति अस्या.। j) =शास्त्रविशेष-।
 k) ०^१प्राणीनि श्रवणप्राणकर्षण इति पा.१ यनि. नोच: ३.। l) विप.। m) =पणायामविशेष-। n) ०^१यद इति
 अस्या.। o) 'संपूर्णः' इति सात.। p) पूर्णपा इति निला. यनि. नोच: ३. (ग्र. अस्या.)।

कौ ४, ६; मना २, १२, ३५^०;
 वृजा ३, १७; ८, ६; वृपु ५, १९;
 वृज २, ५; ससा १, ३४^०; ते २,
 १५; ६, २७; नाप ३, ४६; मि
 शां^०; महा ५, ४६; योशि १,
 १७; अध्या शां^०; १२; २२;
 ६१; सुषा मन्त्रि नि त्रिना जा हं
 पहं मं अता पै तुअ ता या शा
 शां^०; त्रिता २, १२; यो १, ३६;
 वरा ३, ८; सु शां^०; १, २, २;
 अद्वै २; -णंस्य ई शां^०; वृ शां^०;
 ५, १, १; ये वृजा हं पहं सुषा
 मन्त्रि नि त्रिना मं अता पै मि तुअ
 अध्या ता या शा सु शां^०; -णां तै
 २, ८, १; वृ २, ४, २; ४, ५, ३; सु
 १, १, ३६५^०; सार २६४:२:४;
 -णां: वृ ४, ३, २०; सुषा ४; सार
 २२२: ६; २५८: १०; -णांवि
 ई शां^०; वृ शां^०; ५, १, १; ये सुषा
 मन्त्रि नि त्रिना वृजा हं पहं मं
 अता पै मि तुअ अध्या ता या
 शा मु शां^०; महा २, ६७; ५, ४६;
 -णांन् वृ ५, १४, ६; या १२;
 -णांनि वृ २, ५; -णांम् छां ३,
 ११, ६^०; १२, ९; सु २, २, ५२;
 वोरा १८; गु ४६; गुपो ४२१:
 ३; -णं वृजा ६, २; २योत १, ३;
 वरा ४, ३१; -णंलु रुजा २, १८.
 पूर्ण-कुम्भ- -म्भ: मैत्रे २, २७;
 वरा ४, १८.
 १ पूर्ण-गिरि-
 पूर्णगिरि-पीठ- -डम् सौ ३, १
 पूर्णगिर्यां(रि-आएवा)ह्य-
 -ह्यम् योशि १, १७३; ५, १०.
 २ पूर्ण-सि(रि>)री^० - सी म
 ४८: १८.

पूर्ण-चन्द्रा(न्त्र-आम>)भा-
 -भा अता ५.
 पूर्ण-चेतस्- -तसा महा २, ७२.
 पूर्ण-ज्योति: -स्वरूपक- -कम्
 महा ६, ८१.
 पूर्ण-तरा(र-आ)कृति- -ति:
 महा २, ६७.
 पूर्ण-ता- -ता १संन्या २, ५७;
 अन्न २, ३५; -ताम् महा ६, ७५.
 पूर्ण-त्व- -त्वम् ते १, ४२^०; ५,
 २८; -त्वात् मं ३, २, २; योशि
 १, १९.
 पूर्ण-दीक्षा- -क्षाम् गुपो ४२०:३
 पूर्ण-धी- -धिय: अन्न ५, २४.
 पूर्ण-पात्रो(त्र-उ)दक- -कम्
 वृजा ३, १७.
 पूर्ण-प्रभा-शोभित- -त्तम् म
 ४८: ३.
 पूर्ण-बोध- -ध: शु ३, १२;
 -धस्य शु ३, १३.
 पूर्णबोध-कर- -रम् पं ८.
 १ पूर्ण-मास^०-
 पौर्णमास^० -से कथु २, ३^०.
 पौर्णमासी^० -सी वो ३,
 १; -स्याम् छां ५, २, ४; कौ २,
 ३; ९; यो ३, २; म २, २४; सार
 २३२:२१; २८६:७; रा ४२४:
 १; ६; ९; आध ३.
 पौर्णमास^० -स्यम् कथु
 २, ३; कः १; -स्ये कः १^०.
 २ पूर्ण-मास^० -से रुजा २, १८.
 १ पूर्ण-रूप^०-
 पूर्णरूपा(प-आ)स्मन्- -स्मा
 ते ४, ५.
 २ पूर्ण-रूप^० -प: ते ३, १५,
 ३८; ४, ६३.

पूर्ण-विकास- -स: वरा २, ६०.
 पूर्ण-विग्रह- -हे वरा २, ७४.
 पूर्ण-स्वरूप-
 पूर्णस्वरूपिन्- -विण: रुह
 ५०.
 पूर्णां(र्ष-अं)श- -शा: सार
 २४२: १४.
 पूर्णां(र्ष-अ)अलि- -लिम् नाप
 ४, ३८.
 पूर्णां(र्ष-आ)स्मन्- -स्मा महा २,
 ६२; वरा ४, २७.
 १ पूर्णां(र्ष-आ)नन्द^०-
 पूर्णानन्द-मय- -य: राधा
 ३, ९.
 पूर्णानन्द-युत- -त्तम् सार
 २५३: १९.
 पूर्णानन्दै(न्द-ए)क-कारण-
 -णम् राउ ५, ३^०.
 पूर्णानन्दै(न्द-ए)क-बोध-
 -ध: पहं ४; ऋवि १००; नाप
 ३, ८६.
 पूर्णानन्दै(न्द-ए)क-विग्रह-
 -हम् दत्ता १, ४^०.
 पूर्णानन्दै(न्द-ए)क-
 विज्ञान- -न्तम् राउ ४, १^०.
 २ पूर्णां(र्ष-आ)नन्द^० -न्द:
 कृपु २.
 पूर्णां(र्ष-अ)पूर्ण- -णंम् ते ३, ५६.
 पूर्णां(र्ष-अ)भिषेक- -कम् चक्र ५
 पूर्णां(र्ष-अ)भिषेधित- -तम् शि
 ७, ८३.
 पूर्णां(र्ष-आ)हुति^० -ति: म १,
 ३; शि ४, ५१; -तिम् शि ४,
 ५२; ५८.
 पूर्णाहुति-त्रय- -यम् शि २,
 २४.

a) तैशा १०, १०, ३। b) 'पूर्वम्' इति आन।। c) 'अन्नपूर्णा' इत्युपनिषद्विशेषस्योत्तरांशः। d) '०णम्' इति निशा। e) =नाप। f) =देवीविशेष-। g) कस। h) पावा ४, २, ३५। i) 'मास्ये' इति कः १। j) 'मासे' इति कथु २, ३। k) वत। l) 'कविग्रहम्' इति अश्या। m) 'न्दकविग्रहम्' इति निशा। n) 'परिपूर्णावन्दैक-विग्रहम्' इति आन।।

२पुरा- नम् ते २, १९; अध्या १०;
 योचू १०; त्रिवि ६, १६; १७;
 रापू ४, २६; योशि ४, १६; अक्ष
 १, ३४; शि १, २२; ५, २८; ६,
 ५८; १८५; १९३; गु ३२; ३४;
 -राणाम् त्रिता ४, ५; -रे प्र ४,
 ३; श्वे ३, १८; नाप ४, २१; वि
 १९; शि २, २१; ३, १४; ४, ३४;
 ४२; ४४; ६, ४; ६; १३; १८; ५२;
 ६७; ६९; ७७; ९८; १८०; १९८;
 २०३; २०४; २०७; २१८;
 २२६; २३७; २३९; २५३;
 २५८; २६९; २७२; गु ५०; गी
 ५, १३; -रे-रे शि ६, १४०.
 पुरी- नी नाप ८, १; योउ
 २१; -नीम् रापू ४, २७; मरु
 २२७^७; -योम् पप १२९; ३१७^{१०}.
 पुर्यै(री-श)एक- -कम्
 महा ५, १३२; १५३.
 पुर-ग्राम-प्राक्तन-संचार- -रम्
 नाप २.
 पुर-त्रय- -यम् कै १, १४; व ८;
 -याणि सिशि ३८१; २१; -ये
 कै १, १४.
 पुर-नावा- -शे लि ३११; ८.
 पुर-मण्डप- -ये शि ६, १३९.
 पुर-मध्य- -प्यम् त्रि १०.
 पुरमध्य-संस्थ- -स्थम् मना
 २, १२, ३७^७.
 पुर-याचक- -काः मैत्रि ७, ८०.
 पुर-युक्त- -केन शि ६, १०८.
 पुरा(र-श)तक- -काः कुं १७.
 १पुराण- -णः क१, २, १८; वृ४, ५,
 ८; त्रिवि ९९; ए १, २; वा२४;
 पा १, १; हे ५; भव २, ३७;
 गी२, २०; ११, ३८; -णम् क १,

२, १२; वृ४, १८; ५, १, १; श्वे
 ३, २१; मना १, १७^६; ११७^७; अशि
 ५, ७; नाप २, १७; त्रिवि ४,
 ७^६; ७, ४७^{११}; महा ४, ७१; ए
 १३; सु २९३; १४; गी ८, ९;
 -णाः व ४३४; १; -णेन अशि
 ५, १९^१; वटु ३१७; ९.
 पुराणी- -णी श्वे ४, १८;
 शां २, १; त्रि १; गी १५, ४.
 २पुराण^{१०}- -णम् वृ २, ४, १०;
 ४, १, २; ५, ११; मैत्रि ६, ३२;
 ३३; ते ५, ४३; स्व ६०; ४;
 नापू ५, ३७; -णानि वृजा ८, ५;
 वृपू ५, १८; योशि ३, ७; त्रिता
 १, ११; सार २८५; १४; वड
 ५, १८; -णेपु ते ५, ८८; रार १,
 ३; -णैः सार २३१; १३.
 पुराण-क- -के जाद २, १२.
 पुराण-ज- -जः द्व ६.
 पुराण-न्याय-मीमांसा-धर्म-
 शास्त्र-नीति-श्रवण-प्राण-
 कर्षण-कर्म-विशेष- -पान्
 १आ १^{१६}; २आ २.
 पुराण-पठि(त>)ता- -ताम्
 तुल ७०; ४.
 पुराण-श्रवण-पूर्वक- -कम्
 नाप ४, ३८.
 पुराण-पुरुष- -प्राय नाउ २, ९;
 -यैः त्रिवि ६, २३.
 पुराणपुरुषो(प-उ)त्तम- -मः
 ता ३, ८.
 १पुराक- -कम् त्रि ५.
 २पुरक^{१०}- -कः ते १, ३२७^{११};
 ध्या २१; योचू १०१; अक्ष ५,
 २८७^{११}; जाद ६, १२७^{११}; वरा
 ५, १८^१; -कम् त्रिवि २१;

१योत ११५; त्रिवा २, १०८;
 योचू १०३; योशि १, १२७;
 जाद ६, १८; वरा ५, ५७; ५८;
 -कस्य अता १३; -केण ध्या ३०.
 पूरक-कुम्भक- -कौ वरा ५,
 ६१.
 पूरक-कुम्भक-रेचक- -कैः
 मं १, १, ६.
 पूरका(क-श्रा)द्य(दि-श्र)-
 निला(ल-श्रा)याम- -माद शां १,
 ७, २८.
 पूरका(क-श्र)न्त- -न्ते शां
 १, ७, ११; योशि १, १०९; यो
 १, ५१.
 पूरण- -णम् त्रिवा २, १४; -णात्
 त्रिवा २, १९.
 पूरयत्- -यन् तु ११^१; ध्या ७०.
 पूरयित्वा वृ ६, ४, १९; ध्या २०;
 शां १, ७, ४३; योशि १, ८७;
 जाद ५, ७.
 पूरित,ता- -त्तः योशि १, १२१;
 १२२; -त्तम् ध्या ४८; ६९;
 १योत ४१; त्रिवा २, १७; योचू
 ४०; ११४; शां १, ६^१; जाद ६,
 ४, ५; ८; वरा २, ३६; -त्ताः सार
 २२२; १३; -त्तायाम् सार २७१;
 १९.
 पूरित-स्व- -स्वान् महा ७.
 पूर्ण,णी- -णैः तै २, २-५, १; मैत्रि
 १, १०; ते ५, ६१; त्रिवि १००;
 त्रिवि १, ११; महा २, ४७; अक्ष
 २, २६१^१; अध्या ११; कठ १९;
 २०^१; २१; २२; काम १६; गु
 ४६; -णैम् ईशां^{१०}; छां ३, १३,
 ९; वृ शां^{१०}; २, १, ५; ५, १, १;
 ६, ३, ४; श्वे शां^{१०}; ३, १७^१;

a) नगर- । वेपथं यद. । b) तैश्चा १, २७, ३ । c) माप्राविशेष- । d) तैश्चा १०, १०, ३ । e) 'री' इति सात. । f) वेपथं यद. । g) तैश्चा १०, १, १ । h) तैश्चा ३, १२, ३, ५ । i) 'णम्' इति अन्त्या. । j) 'शास्त्रविशेष- । k) 'शान्नीति श्रवणप्राणाकर्षण' इति पा. ? यनि. शोषः द. । l) विप. । m) 'शाणायामविशेष- । n) 'यव' इति अन्त्या. । o) 'संपूर्णः' इति सात. । p) पूर्णवा' इति निता. यनि. शोषः द. (य. अन्त्या.) ।

५, १२; ६, ७७; ७८; १संन्या
२, १०४; पप ४२०: ४; अक्ष
४, ३०; ३३; कृ ४०; ४२;
यो ३, १५; ३२; पं २०; वरा
२, ७७; कलि २; प्रकाशन्ते द्वे
६, २३; सुवा १६; योशि २,
२२; सार २६६: १६; गु ७६.
प्रकाशयते १शोत ७; योशि १, ५.
प्रकाशयति प्र १, ६; अ२; वृत्
२, ११; हं २१; सां ६, ५०;
गी ५, १६; १३, ३३; प्रकाश-
यन्ते प्र २, १; प्रकाशयसे गु ३१;
प्रकाशयेत् ब्रवि ७६; १आ १०;
यो २, १३; गोपू २१.

प्रकाश-शः अ२१; ब्रवि १०२;
रार ५, ३; पाशु २, २०; २१; वरा
२, ९; पारा ४; वज ६, ५२;
सां १, १४५; मसू ३, २५;
गी ७, २५; १४, ११; शम् ५ १,
४; वरा २, २२; गोत् ४१; पा
५, २, ८, ५; गी १४, २२; शानाम्
महा ६, १९; नोन्यः अ २.
प्रकाश-क्रिया-स्थिति-शैल-
-लम् योसू २, १८.
प्रकाश-तस(>) आवो २८१;
सां ६, ४९.

प्रकाश-तिमिरा(र-आ)दिक-
-कम् महा ६, ६.
प्रकाश-व- -त्वात् महा २, ६;
१संन्या २, ८३.
प्रकाश-प्रक्षेपकौ(क-आ)ण्य-
स्थान-
प्रकाशप्रक्षेपकौण्यस्था-
नीय- -यम् मैत्रि ७, ११.
प्रकाश-प्रवृत्ति-नियमा(म-अ)-
थ- -थाः सांका १२.

प्रकाश-प्रहाचारिन्-री म ४८:
१४.

प्रकाश-मध्य- -ध्ये अद्वै १४.
प्रकाश-रूप- -पाः सी १४.
प्रकाश-वत् मसू ३, १५.
प्रकाश-वत्- -वतः छां ४, ५, ३;
७, १२, २; -वात् छां ४, ५, २; ३.
प्रकाश-शक्ति-रूप- -पम् त्रिता
१, ५३.

प्रकाशा(श-आ)रमक- -कम् लि
३११: ३.

प्रकाशा(श-आ)रमन्- -त्ना नाउ
१, १८.

प्रकाशा(श-आ)दि-
प्रकाशादि-वत् मसू २, ३,
४६; ३, २, २५; ३४.

प्रकाशा(श-आ)वरण- -णम्
योसू २, ५२.

प्रकाशावरण-क्षय- -यः योसू
३, ४४.

प्रकाशा(श-अ)व्यभिचार-
प्रकाशाव्यभिचार-तस(>):
पाशु २, १९; २०.

प्रकाशा(श-आ)श्रय-
प्रकाशाश्रय-वत् मसू ३, २,
२८.

प्रकाश्य-
प्रकाश्य-भूत- -ताः मैत्रि
७, ८०.

प्रकाशक- -कम् पाशु १, २६; वरा
५, ५०; सांका १३; गी १४, ६.
प्रकाशन- -नम् महा ६, १९; ने
गर्भ ११.

प्रकाशमान(>)जा- -ना सी १४.
प्रकाशयत्- -यत् द्वे ५, ४; गोपू
२५; -यन्तम् यै ३, २; यो ३, २६.

प्रकाशयन्ती- -न्ती गु ६४.

प्रकाशित- -तः गी ३, १२; पाशु
२, २१; जाद १०, ८; अद्वै १३;
१७; -तम् गौ २, ३; ३, १२;
अद्वै २; ११; स्व ६२: ५.
प्रकाशियमा(ए>)णा- -णा सी
३७^६.

प्रकाश्य प्र २, २; सांका ३६; ५९.
प्रकाश्य- -इयम् सांका ३२.

प्रकिर- प्र/कृ द.

प्रकीर्ति-, प्रकीर्तित- प्र/कृ द.

प्रकुल्य- -ल्येभ्यः वपू १, ३^१.

प्र/कृ, प्रकुर्वते तुल ७१: १३; प्र-
कुर्वन्ति सार २६४: १५; शि
३, ५; प्रकुर्वीत लु ६; जाद ६,
१५; जाभा १८; काला ९; क
६४: ३; शि २, २४.
प्र...अकः बा ४^१.

प्रकरणा- -णात् मसू १, २, १०;
३, ६; ४, ५; ३, ४, ५; ४, ४, ३;
१७.

प्रकरण-भेद- -दात् मसू ३, ३, ७.

प्रकरणा(ए-अ)न्तर- -रैः शि
१, ०.

प्रकर्तव्य, व्या- -व्यम् यो २, ३९;
-व्या वि ४; शि ४, १५.

प्रकार- -राणि शि ७, ८९; -रेण
व्या ९३, १; १५; त्रिषा २, ५१;
त्रिता २, ४३; जाद १, ७, २, ३;
३, १२; वि ३१.

प्रकारा(र-अ)न्तरा(र-अ)संभ-
व- -वात् सां ६, १६; ५३.

प्रकुर्वत्- -वत् पा १, ६.

प्रकुर्वण- -णः नाप ३, ५७.

प्रकृत- -त्वात् महा ४, १८; -त्वात्
महा २, ६०; -त्वात् शारी ८;

a) प्रातिभासिक इति निसा. संदि. । b) 'प्रकाशते' इति निसा. । c) तु. सस्थ. टि. जटदोष-> -पात् ।

d) विप. । मत्वर्थे यक् प्र. उत्से. (पावा ५, २, १२०) । e) प्रकाश इति सात. । f) 'रूपदर्शने' इति ध्यान., अज्जा. ।

g) 'प्रकाशयम्' इति काचिकं निसा. । h) 'काशयमाना इति निसा., अज्जा. संदि. । i) 'लिन्यः इति संदि. ।

j) वैतु. वाटी. प्रभी-> -भीम् इति ।

पूर्ण(म>)मा^१ - मा मं २,
१, ६.
पूर्णमा(मा-अ)भ्यास- सः
मं २, १, ६.
पूर्ण(र्ण-इ)न्दु-न्दुः महा ५, ६८.
पूर्णमाण,णा- णाः सार २३३;
१०; २८७:३; -णानि सार
२३७:४; -णाम् शि ६, १३१.
पेपीयमान- √पा(पाने) द्र.
पेलव^१- वः १संन्या २, १९.
पेशाल^१- लः अक्ष २, ३१; -ल्यनि
अक्षि ७.
पेशाला(ल-आ)चार- -रः महा ६, ७०.
पेशालो(ल-उ)क्ति-
पेशालोक्ति-मत्- -मान् महा ६,
६५.
पेशस्^१- दाः व ४३७:२०५^d; -दासः
वृ ४, ४, ४.
पेनास-कारिन्- -री वृ ४, ४, ४.
पे(रा>)शी^१- -शी निरु १, ९.
पैङ्गल- ३पिङ्गल- द्र.
पैङ्गथ- ३पिङ्ग- द्र.
पैतृक- पितृ- द्र.
पैत्तिक- पित्त- द्र.
पैप्पलाद^१, पैप्पलादि^१, पैप्पला-
दिका- पिप्पल- द्र.
पैदाच- विशाच- द्र.
पैयुन्य- पियुन- द्र.
√पोपुय, पोप्यमान- √पू द्र.
√पोप्स्य √प्सु द्र.
पोय-पोयण- √पुप द्र.
पोय-पुंग- द्र.
१-३पौण्ड्र^१, पौण्ड्रक^१, १-२पौण्ड्र-
कालिक- ३-६पुण्ड्र- द्र.
पौतिमापी^१, पौतिमाप्य- पृति-
माप- द्र.

पौत्र- १पुत्र- द्र.
पौत्रायण- २पुत्र- द्र.
पौरुशिष्टि- पुरु- द्र.
पौरुय- , पौरुवेय- १पुरुय- द्र.
पौरुमास- , पौरुमास्य- √पू द्र.
पौरुवेदहिक- पूर्व- द्र.
पौलक- २पुलक- द्र.
पौलस्त्य- पुलस्ति- द्र.
पौलुपि- पुलुप- द्र.
पौलाम- पुलोमन्- द्र.
पौलक्स- पुलक्स- द्र.
पौप- पुष्य- द्र.
पौप्कर- पुष्कर- द्र.
√प्याय>पी^१
पीन- नम् ते ६, ११.
पीन-जङ्ग- -ङ्गम् वृ २, २.
पीन-वृत्त-पयो-ध(र>)रा-
-राः शि ४, ३६.
पीनो(न-उ)न्नत-धन-स्त(न>)-
नी- -नीम् सुसु २.
पीनो(न-उ)न्नत-वसो-रु(ह>)-
हा- -हा तारा ८३: १८.
पीवर^१- -रः महा ५, १३.
पीवरो^१- -री महा ५, ५७.

√व्यै

व्यायम- नात् वैमि ६, ७.
प्र^१ छां २, ८, १.
प्रउग^१- नाम छाग २३: १०; २४: १३.
प्र/कट, >कटि, प्रकटयिष्यामि सार
२४१: १७.
प्र-कट-
प्राकट्य- -व्यम् लि ३१०: ४;
१द्यौल ५: १; २द्यौल ५: ४; ८: १.
प्राकट्य-वेह-रूप-
प्राकट्यवेहरूपिन्-
-विणे सार २७७: ४.

प्रकटी^१ √कृ, प्रकटीकरोति श ८.
प्रकटी-कृत- -तः राष्ट्र १,
२; -तुम् सार २४१: ७.
प्रकटी-कृत्य सार २३८: १२.
प्र-कटित, ता- -तः सार २४५:
२१; २५४: २०; -तम् सार
२४०: १९; -ता सार २२०: ६;
२४०: ६; २४१: ९; २४३; वाः
सार २२०: १४; २४०: ११;
२२; २४९: ६; २७५: ५; २८९:
१५; -ते सार २२०: ५.
प्रकटित-द्वंष्ट्रो(द्वु-उ)प्र-रूप-
वद्(न>)ना- -णे व ४३१:
११.
प्रकटित-वसुन्व(र>)रा- -०रे
व ४३१: १४.
प्र-कटितवत्- -वान् सार २२०:
१२; २४०: ७.

प्र/कम्

प्र-काम- -मः पा २, ५; -मम् पा
१, ६.
प्राकाम्य-
प्राकाम्य-सिद्धि- -द्धिः
आय ३९३: ७; ३९८: ३.
प्रकाम-सिद्धि- -द्धिः आय
३९३: १०.
प्र/कम्प
प्र-कम्पित- -तः नाप ५, २८.
प्रकरण- , प्रकर्तव्य- , प्रकार-प्र/कृ द्र.
प्रकल्पित- , प्रकल्प्य प्र/कल्प द्र.
प्रकारणम् २प्र ३५: १२४.
प्र/काश, >काशि, प्रकाशते क १,
३, १२; गी ३, २६; कै १, १७;
वृ ७, ५; ससा १, २४; त्रिप्रा
२, १६०; वोच ७४; ७८; ८२;
द १; वोशि १, ९५; २, १४; १८;

a) =रुद्रविशेष- । b) व्युः । c) वैश १ यद. । d) श्र १, ६, १ । e) व्युः =मांसलण्ड- f) पा ६, १,
२८ । g) प्रया. पीभावः काप्र प्र. च उभं. [पा ३, २, १६२ (वेदु. पाठ. [३, १] <√पा(पाने))] । h) व्री. वीप
(पा ४, १, १५) । वैश १ यद. । i) 'मयनात्' इति मे ५, ७ । j) 'प्रस्ताव-' इत्यस्य पूर्वशः । k) प्रक^१ इति मुपा-
बन्नि. शोधः द. । l) पा. प्रकरण- > -णम् इति शोधः द. (विनु. 'प्रसारणम्' इति गोमा १, १, २६) ।

५, १२; ६, ७७; ७८; १संन्या
२, १०४; ५५ ४२०: ४; अल
४, ३०; ३३; छह ४०; ४२;
यो ३, १५; ३२; पें २०; वरा
२, ७७; कलि २; प्रकाशान्ते धे
६, २३; सुवा १६; योशि २,
२३; सार २६६: १६; यु ७६.
प्रकाश्यते १योत ७; योशि १, ५.
प्रकाशयति प्र १, ६; अ २; वृत्
२, ११; हं २१४; सांस् ६, ५०;
गी ५, १६; १३, ३३; प्रकाश-
यन्ते प्र २, १; प्रकाशयसे गु ३१;
प्रकाशयेत् व्रवि ७६; १आ १०;
यो २, १३; गोप् २१.

प्र-काश- -शः अ२^१; व्रवि १०१;
रार ५, ३; पाशु २, २०; २१; १रा
२, ९; पारा ४; वज ६, ५२;
सांस् १, १४५; व्रस् ३, २, २५;
गी ७, २५; १४, ११; शम् गु १,
४; वरा २, २२; गोड ४१; पा
५, २, ६, ५; गी १४, २२; शानाम्
महा ६, १९; श्लोभ्यः अ २.
प्रकाश-क्रिया-स्थिति-शील-
-लम् योस् २, १८.

प्रकाश-तस(>) आवो २८^१;
सांस् ६, ४९.

प्रकाश-तिमिरा(र-श्रौ)दिक-
-कम् महा ६, ६.

प्रकाश-त्व- -त्वात् महा २, ६;
१संन्या २, ८३.

प्रकाश-प्रक्षेपकौ(क-श्रौ)ण्य-
स्थान-

प्रकाशप्रक्षेपकौण्यस्था-
नीय- -यम् मैत्रि ७, ११.

प्रकाश-प्रवृत्ति-नियमा(म-श्र-
ध- -यां: सांका १२.

प्रकाश-प्रहचारिन्- -री म ४८:
१४.

प्रकाश-मध्य- -ध्ये अद्वै १४.

प्रकाश-रूप- -या: सी १४.

प्रकाश-वत् व्रस् ३, २, १५.

प्रकाश-वत्- -वत: छां ४, ५, ३;

७, १२, २; -वात् छां ४, ५, ३^१.

प्रकाश-शक्ति-रूप- -पम् व्रिता
१, ५३.

प्रकाशा(श-श्र)रमक- -कम् लि
३११: ३.

प्रकाशा(श-श्र)रमन्- -सा नाज
१, १८.

प्रकाशा(श-श्र)दि-

प्रकाशादि-वत् व्रस् २, ३,
४६; ३, २, २५; ३४.

प्रकाशा(श-श्र)वरण- -गम्
योस् २, ५२.

प्रकाशावरण-क्षय- -य: योस्
३, ४४.

प्रकाशा(श-श्र)व्यभिचार-

प्रकाशाव्यभिचार-तस(>)
पाशु २, १९; २०.

प्रकाशा(श-श्र)श्रय-

प्रकाशाश्रय-वत् व्रस् ३, २,
२८.

प्राकाश्य^१-

प्राकाश्य-भूत- -ता: मैत्रि
७, ८^१.

प्र-काशक- -कम् पाशु १, २६; वरा
५, ५०; सांका १३; गी १४, ६.

प्र-काशन- -नम् महा ६, १९; -ने
गर्भे १^१.

प्र-काशमा(न>)ना- -ना सी १४.

प्र-काशयत्- -यन् धे ५, ४; गोप्
२५६; -यन्तम् पे ३, २; यो ३, २६.

प्रकाशयन्ती- -न्ती यु ६४.

प्र-काशित- -त: गौ ३, १३; पाशु
२, २१; जाद १०, ८; अद्वै १३;

१७; -तम् गौ २, ३; ३, १२;
अद्वै २; ११; स्व ६२: ५.

प्र-काशिव्यसा(ण>)णा- -णा सी
३७^४.

प्र-काश्य प्र २, २; सांका ३६; ५९.

प्र-काश्य- -इयम् सांका ३२.

प्रकिर- प्र/कृ द.

प्रकीर्ति-, प्रकीर्तित- प्र/कृ द.

प्र-कुल्य- -ल्येभ्य: वप् १, ३^१.

प्र/कृ, प्रकुर्वते तुल ७१: १३; प्र-
कुर्वन्ति सार २६४: १५; शि
३, ५; प्रकुर्वति लु ६; जाद ६,
१५; जावा १८; काला ९; ऊ
६४: ३; शि २, २४.

प्र...अक: वा ४^१.

प्र-करण^१- -गात् व्रस् १, २, १०;
३, ६; ४, ५; ३, ३, ४५; ४, ४, ३;
१५.

प्रकरण-भेद- -नात् व्रस् ३, ३, ५.

प्रकरणा(ण-य)न्तर- -रे: शि
१, ०.

प्र-कर्तव्य, इया- -व्यम् यो २, ३९;
-व्या वि ४; शि ४, १५.

प्र-कार- -राणि शि ७, ८९; -रेण
प्या ९३, १; १५; विवा २, ५१;
विता २, ४३; जाद १, ७; २, ३;
३, १२; वि ३१.

प्रकारा(र-श्र)न्तरा(र-श्र)संभ-
व- -वात् सांस् ६, १६; ५३.

प्र-कुर्वत्- -वत् पा १, ६.

प्र-कुर्वाण- -ण: नाप ३, ५७.

प्र-कृत- -तात् महा ४, १८; -तात्
महा २, ९०; -तानि शारी ८;

a) प्रातिमासिक^० इति निशा. संटि. । b) 'प्रकाशते' इति निशा. । c) तु. सस्थ. टि. षडदोष-> पात् ।

d) विप. । मत्वर्थे यक् प्र. उसं. (पावा ५, २, १२०) । e) प्रकाश^० इति सात. । f) 'रूपदर्शने' इति थान., अथ्या. ।

g) 'प्राकाशयम्' इति क्वाचिकं निशा. । h) 'काश्यमाना इति निशा., अथ्या. संटि. । i) 'लेभ्यः इति संटि. ।

j) वैतु. वाटी. प्रभी-> -सीम् इति ।

तेन महा ५, ३७.

प्रकृत-त्व- -त्वात् प्रसू ३, १, १७.

प्रकृतै(त-ए)त्वावश- -त्वम् प्रसू ३, २, २२.

प्र-कृति- -तयः शारी ६; गर्भ ३;

-तिः गौ ४, ९; २९; मैत्रि ६, १०;

लृप् ४, १५, ९; नि ५; १८; १९; ति

६, ५; २०; सी २; ८; रार ५, ८;

राउ २, ४; ४, ३८; महा ५, १३१;

६, ६१; अक्ष ३; सर ३, १४; २प्र

३४: ११; ३७: ३; नापू २, ४;

५, १४; राधा ३, १५; सि

१, १२; यु ७; विद्या १; भव २,

८; १४; ४, ५; वपू २, ३; वउ ४,

९; सांस् १, ६१; १३३; सांका ३;

५९; ६२; ६३; प्रसू १, ४, २३;

गी ७, ४, ९, १०; १३, २०; १८,

५९; -तिभिः निह २, ८; -तिम्

क्षे ४, १०; सुद्र २; यो ३, ८; सी

२, ११; सार २१९: ५; गार

४०५: ४; यु ५५; भव २, १३;

सांका ६५; गी ३, ३३; ४, ६;

७, ५; ९, ५; १२; १३; ११,

५१; १३, १९; २३; -वीनाम् योस्

४, ३; -ते: गौ ३, २१; ४, ७; २९;

धृजा २, १२; ससा ३; गश् ३; सुद्र

१, ५; भव २, ७; ३०; ३२; ४, ६;

सांस् १, ६१, ६५; ६९; ३, ७२;

६, ३२; ६७; सांका २२; ४२;

६१; गी ३, २७; २९; ३३; ९, ८;

-तौ प्रिवि ३, ४; -स्या गौ ४,

११-१३; रापू ४, ७; ८; गी ७,

२०; १३, २९; -त्ये दे ३.

प्राकृत- -तः गौ ४, ८५; रार

५, ९; रापू २, २; गी १८, २८;

-तम् मैत्रि ६, १०; -ताय महा

२; -ते रापू ४, ६७; -तै: मै ३,

२; मैत्रि ३, २.

प्राकृत-पूर्व-देह- -हम्

प्रिवि ५, १२.

प्राकृतिक- -काः सांका ४३.

प्रकृति-कार्य-वैचित्र्य- -स्यात्

सांस् ५, २०.

प्रकृति-कृत- -तः सांका ५६.

प्रकृति-ज- -जान् भव २, ९; गी

१३, २१; जैः गी ३, ५; १८, ४०.

प्रकृति-त्व- -त्वम् गोउ ४४;

सर ३, १२.

प्रकृति-दान्तत्व- -त्वात् गौ ४,

८६.

प्रकृति-नियन्ध(न>)ना- -ना

सांस् १, १८^६.

प्रकृति-निर्मल- -लाः गौ ४, ९८.

प्रकृति-पर- -रः गोउ १६^७.

प्रकृति-पुरुष- -पयोः सांस् ५, ७२.

प्रकृतिपुरुष-द्वैविध्य- -ध्यम्

नाप ८, १; तु १३.

प्रकृतिपुरुष-मय- -यः वपू

२, ३.

प्रकृतिपुरुषा(प-आ)त्मक-

-कम् दे १.

प्रकृति-भेद-वश- -दान् मैत्रि

६, ३०.

प्रकृति-मय- -यः मै २, ९; मैत्रि

२, ६.

प्रकृति-महत्-तय- -त्वानि

वउ २, ३१.

प्रकृति-महद्-अहमा-

(स्-आय>)पा- -याः गोच

६७: ८.

प्रकृति-मानुष- -पाः शि ७,

१३९.

प्रकृति-योगिन्-

प्रकृतियोगि-ता- -ना सार

२१०: ५.

प्रकृति-त्य- -यः सांका ४५.

प्रकृति-लीन- -नस्य मना २, १२,

३९^९; शु ३, १८; नाउ १, ६९^९.

प्रकृति-वत् सांस् ३, २९.

प्रकृति-वास्तव- -वे सांस् २, ५.

प्रकृति-विकृति- -तयः सांका ३.

प्रकृति-संभव- -वाः गी १४,

५; -वान् गी १३, १९.

प्रकृति-सरूप- -पम् सांका ८.

प्रकृति-स्थ- -स्थः भव २, ९; गी

१३, २१; -स्थानि गी १५, ७.

प्रकृति-स्वरूप- -पम् ता १, २.

प्रकृतीय- -यम् नाप ५, १^६.

प्रकृत्य(ति-अ)भिधे(व>)या-

-याम् मि १५^०.

प्रकृत्य(ति-अ)वच्छिन्न-

प्रकृत्यवच्छिन्न-ता- -तया

सर ३, १३.

प्रकृत्य(ति-अ)ष्टक-रूप- -यम्

यो १, ७४.

प्रकृत्या(ति-आ)पूर- -रात् योव

४, २.

प्रकृत्यु(ति-उ)पकार- -रे सांस्

३, ६८.

प्रकृत्यु(ति-उ)पादान-काल-

भाष्या(य-आद्य>)ख्या-

-ख्याः सांका ५०^६.

प्र-क्रियमाण- -णानि सार २४६: २.

प्र-क्रिया- -या रुजा १, ७.

प्रा-कार^६- -रम् शि २, १४; -रात्

शि २, १५; -रेण शि ६, १०८.

प्राकार-गुप्त- -सम् शि २, १६.

प्राकार-तस(ः) शि ६, ७५.

प्राकारा(र-अ)न्त- -न्तम् शि

४, १९.

प्राकारा(र-अ)न्तर-यद्विह(ः)

शि ४, १९.

प्राकारा(र-अ)न्तः- -दिधत्- -तम्

शि २, १४.

a) *नात् इत्यपि पाठे. । b) *रयोः इति ध्यान. । c) तैश्चा १०, १०, ३ । d) *प्राकृतिकम् इति धर्म्यां. ।

e) *धेयम् इति धर्म्या । f) *भागा इत्यपि पाठे. । g) पावा ६, ३, १२२ ।

प्र/कृप्, > कर्षि प्रकर्षयेत् यो २, ३०.

प्र-कृष्ट- -ष्टाय वप् १, ३.

प्र/कृ>किट्

प्र-किट्- -रम् इ १५: १३१.

प्र/कृत्>कीर्त्

प्र-कीर्त्ति- -र्यां गी ११, ३६.

प्र-कीर्त्तित, ता- -तः गौ १, ५; अना

१७; ३७; योच् १११; नाप ३,

६७; सी २२१; ३१; महा ६,

४३; वरा ५, ४२; शि ७, ६२;

१०२; -तम् गौ ३, १४; ४, ८८;

१योत् ८८; ९१; ९५; नाप ८,

१५; त्रिप्रा २, १३६; योशि ६,

७२; जाद ४, ३४; शि ५, १०;

४८; -त्ता अज ४, ४६; दे १८;

जाद २, १०; ४, ५; सु २, ५७;

गु ८१; -त्ता: वृजा ४, २६; ध्या

५५; सी ३०; राष्ट्र ४, ५४;

योशि १, १५२; शि १, ११; ७,

१३५; गु १९; -न्ते गु १०.

प्र-कोटि- -दिभिः वरा ५, ६२.

प्र-कोष्ठ- -ष्ठयोः वृजा ४, ३१.

प्र/क्रम्

प्र-क्रम्यं निरु २, ८.

प्रक्रियमाण- , प्रक्रिया- प्र/कृ द.

प्र/कल्प् (<कृप्)> कल्प्, कल्पि,

प्रकल्पयेत् प्रवि ६४; रार २,

८९; ९६; १००; रुजा १, १७;

शि २, १०; ११; १९; ३, ३; ७;

४, ६०; ५, ५२; ६, १०५; १५३;

२२६; ७, ३; ४७.

प्र-कल्पिष- -तम् मैत्रि ६, १२; भव

१, ४४; -त्ता: नाप् ५, ३०.

प्र-कल्प्य राष्ट्र ५, ३; ७^b.

प्र/कृत्>क्षालि

प्र-क्षालन- -नम् वउ ६, ११; -नात्

वा ४; गोच ६६: १.

प्र-क्षाल्य वृ ६, ३, ६; ४, १९; महा ५,

८३; अ १, ६; आच १.

प्र/क्षि(त्तये)

प्र-क्षीण-

प्रक्षीण-चित्त-दर्प- -र्षस्य महा

५, ७७; सु २, २, ४१.

प्रक्षीण-भोगे(ग-इच्छा)>च्छ-

-च्छस्य महा ५, १०६.

प्र/क्षिप्, >क्षेपि, प्रक्षिपेत् वृजा ३,

१३; त्रिप्रा २, ९६.

प्राक्षिपत् प १, २५.

प्र-क्षिष्य नाप ४, ३८.

प्र-क्षेपक- -कः मैत्रि ७, ११.

प्र/गल्

प्र-गलित-

प्रगलित-जगदीश-जीव-

भेद- -दः आबो १.

प्रगलित-निज-मा(या)>य-

-यः आबो १.

प्र-गुण-

प्रगुणित- -तम् रार २, १३.

प्र-गुरु- -रोः लि ३११: २.

प्र/गृह्, गृह्

प्र-गृह्य शि ७, ४६.

प्र-ग्रह- -हम् कृ १, ३, ३; प ४,

१; शि ६, २७६; भव २,

१०.

प्र/घम्

प्र-जघ- -जघम् प्रा १, ५०.

प्र/चक्ष्, प्रचक्षते गौ ३, ३३; नाप

३, ६३; शो १, ३, १; योशि १,

१६९; ५, ५; जाद ३, ४; वरा ५,

१८; ३५; गु २२; २३; भव ३,

२२; ४, १४; मिम ६, १६.

प्र/चट्, प्रचट-प्रचट वपं ३१२: ५.

प्र-चण्ड-

प्रचण्ड-दण्ड-डो(स्)>र-दण्ड-

-ण्डम् वप् २, २.

प्र/चर्, >चारि, प्रचारन्ति प्र ४, २;

मैत्रि ६, ३१; मना २, ६७^b;

२शिसं २; प्रचरेत् लि ३११: ३.

प्रचचार भव १, २४.

प्र-चरत्- -रम् गौ ४, ६३.

प्र-चार- -रः गौ ३, ३४; वरा ५, २.

प्रचार-शून्य- -न्यम् मं ३, १, ४.

प्रचार-संवेदन- -नात् योषु ३,

३९.

प्र-चारण-

प्रचारण-विलेखन-स्थौ(स्त्यौ^०)-

ला[त्(क्ष्य^०)-अ]क्ष्यन्मेप-निमे-

पा(प-च्चा)दि- -दि शारी ११^१.

प्रचारणो(ण-उ)त्तरण-भासा-

(स-च्चा)दिक- -काः पै २, ६.

प्र/चल्, प्रचलति महा ५, ७^०.

प्र-चलन- -नम् मै १, ७; मैत्रि १;

४; मैत्रे १, २.

प्र/चित्, >चेति, प्रचेतयति सर २,

५^b.

प्र-चेतस्- -०तः व ४६०: ७^b;

-^०त्तले मना २, २५; २शिसं १२.

प्र/चुद्, >चोदि, प्रचोदयत् वृ ६, ३,

६^b; मै ५, ७^b; मैत्रि ६, ७^b; हं

११; मना १, ५^b; ६^b; ७^b;

२, २०^b; ३५^b; वृ ४, ११;

१३; त्रिवि ७, ३९^b; ४^b; ४३;

४४^b; रार २, ८७; ७^b; २२;

सावि १०^b; त्रिता १, ६^b; ३०^b;

१२; ४८; ३, ३५; ४, ३४; दे ७;

प १०; क ६३; १२; तुल ७०:

१२; नाप् ३, २; ४, २-४; वृ ५

८४; २०; वारा २^b; ४; ६^b; ९;

a) पा. १^० तम् इति शोधः द. (वृ. निता.) । b) 'समर्प्य' इति भान. । c) 'जापम्' इति अच्चा. ।
 d) तेषाम्ना १०, ६७ । e) पा. १^० यति. शोधः द. । f) 'पुन्यमेप' इति निता. यति. शोधः द. । g) 'पच' इति अच्चा.,
 'कृष्' इति अच्चा. संति. । h) श्र १, ३, १२ । i) श्र १०, ८३, ५ । j) श्र १, ४३, १ । k) श्र ३, ६२, १० ।
 l) तेषा १०, १, ५^१ । m) तेषा १०, १, ६^१ । n) तेषा १०, १, ७^१ । o) तेषा १०, ४६, १ ।

गार ४०५:१४;२१; व ४२९:
१९९^०; ४३४:७; ४३६:२;
४५७:१०९^०; ४५९:१३;
४६१:२०; ४६२:५; ८;
४६३:१९९^०; २^०९^०; ३^०९^०; ४^०९^०;
५-८९^०; ९-१३; १५-२१; वउ
२, ९९^०.

प्र-चोदय(त् >)न्ती- न्ती मना
२, ३६९^१.

प्रचोदयात्

प्रचोदयादा(त्-आत्मक >)-

त्मिका- -०के सावि १०^०.

प्र-चोदयित्- -ता मै २, ३; ४^१; ५;
९; मैत्रि २, ३; ४^१; ५^१; ६; छाग
२५: ११; -आ छाग २५: १२.

प्र-चोदित- -तम् क्षेत्रे ६, २२; गु७५.

प्रचोदित-काम- -म: गार ४०५:
२१.

प्रचुर-^१

प्राचुर्य- -यात् प्र १, १, १३.

प्रचुर्य:या^१ सावि १०.

√प्रच्छ् > पृच्छ^१, पृच्छति कौ १, २;

पप ४१९:२०; ४२०:६; जाबा
१९; राधा १, ६; १४; पृच्छसि प्र
३, २; पृच्छामि प्र ६, १; वृ ३,
३, १; ९, २६; २७^०; जा ५; २ प्र
३४:१४; गी२, ७; पृच्छाम: २ प्र
३४: ५; पृच्छतु वृ ३, ९, २७;
पृच्छ छां १, ८, ३; वृ ३, ८, १;
२:५; मै १, १; मैत्रे १, १; २ प्र
३४:१४; पृच्छष्वम् व १, ४;
पृच्छत प्र १, २^१; वृ ३, ९, २७;
वृउ ९, ११; पृच्छामि छां १, ८,
३; पृच्छामि पित्र १, २; अपृच्छत
प्र ६, १; अपृच्छत् इ१०: ५;
२ प्र ३४: १४; अपृच्छन् अशि

१, १; १२; च २१: १५; वृष
८४: १; अपृच्छम् छां ४, ४, ४;
अपृच्छामि वृ ३, ३, १^१; ७, १.

पमच्छ प्र १, ३; २-६, १; सुं १,
१, ३; छां ६, ७, ४; वृ ३, १, २;
२-७, १; ९, १; ९, २८, १; ४, ३, १;
प्र १^१; कौ १, १^१; वृजा २, १;
४, १०; ७, ८; जा २; ५; फाला
३: ११; सुषा ९-११; १५; ते
२-५, १; १योत ३; नाप ३, १;
७७; ४, ३८; ५, १; ८, १; ९, १;
मं २, १, १; ३, १, १; ४, १, १; राउ
१, २; ३, १; ३; वा १; शां १, १;
४; २, १; ३, १^१; पै १, २; ३, १;
४, १; महा २, १४; योशि १,
३; पप ४१७: १; अत्त १; अथ
१, २; १७; अस्ति १; १अव १;
म१, १; २, १; दजा १-३, १; जाद
१, २; ता १, २; या २, १; वरा
४, १; ५, १; कलि २; ३; जाबा
१; सु १, १, ४; २, १; २, १, १;
आपें ७: १५; ८: ६; २२; ९:
१०; सूता १, २; २, १; ऊ ६३:
१; गोच ६५: १; नापू १, १;
सार २२०: २२; २४३: ४; सि
१, २; सिशि ३८०: १; सि १,
१; विद्या १; तारा ८४: ७; पित्र
१, ६; २-५, १; पमच्छ: वृजा ६,
५; सु १, १; नाप २; द १; रार
१, ७^१; २-५, १; गोषू २५; सर
१, १; सार २१९: १; २३०:
१३; २४०: १७; २४२: ९;
११; प्रक्षन्ति छां ५, ११, ३;
प्रक्ष्यामि वृ ३, ८, १; अमाक्षीत्
छां ५, ३, ५, वृ ६, २, ३; प्राक्षीत्
कौ १, १; अमाक्ष्या: छां ६, १, २.

पृच्छत्- -च्छत: १संन्धा २, १०२;
-च्छन् छां ६, १४, २; -च्छन्तम्
वि ५.

पृष्ट- -ष्ट: वृउ ८, २; वरा २, १;
कलि १; जाबा ७; सार २२६:
१५; २४३: ७; सि १, ४; -ष्टम्
शु १, १२; नाप ७^१; जाबा ३;
सु १, १, ७; शि ६, २७९; सि १,
२; -ष्टेन महा २, १६; ३२.

पृष्ट्वा वृजा ६, ८.

१प्रक्ष- -अ: प्र १, ४, ६; -अम्
प्र ६, १; मै १, १; मैत्रि १, २;
४, ५; मैत्रे १, १; सार २४९: २;
२५०: १६; -आ: २ प्र ३४: ९;
१२; -आन् प्र १, २; छां ५, ३;
५; वृ ६, २, ३; पित्र १, १६;
-आभ्याम् वृ ३, ८, २; -शे शि
७, ६६; -शौ वृ ३, ८, १.
२प्रक्ष^१०-

प्रक्ष-मुण्डक-माण्डूक्या-
(क्य-अ)षर्वशितरो(स-अ)षर्वशि-
खा-वृहज्जायाल-नृसिंहतापनी-
नारदपरिषाज्जक-सीता-शरभ-
महानारायण-रामरहस्य-राम-
तापनी-शाण्डिल्य-परमहंस-
परिम(जक(क-अ)वर्णान्-सूयां-
(र्य-आ)रम-वाद्युपत-परमशत्रि-
पुरातपन-देवी-भावना-ब्रह्म-जा-
बाल-गणपति-महावाक्य-गो-
पालतपन-कृष्ण-हयग्रीव-दत्ता-
त्रेय-गारुड^१- -डानाम् सु १,
२, ५.
प्रक्ष-निरूपण- -गाभ्याम् प्र ६,
३, १, १.
प्रक्ष-व्याख्यान- -नाभ्याम् प्र ६,
१, ५, १८.

a) श्र ३, ६२, १० । b) तैआ १०, १, ६ । c) तैआ १०, १, ६^१ । d) तैआ १०, १, ७ । e) तैआ १०,
१, ५ । f) 'प्रचोदयन्ताम्' इति शो १९, ७१, १ । g) 'दयामि' इति अज्या. । h) व्यु. ? । i) पा. ? (व. 'यांथा
इति अज्या.) प्राचुर्य- > -यांय इति शोष: ? । j) पा ६, १, १६ । k) 'पृच्छय' इति निसा. । l) 'अपृच्छत्' इति
आन. । m) 'पृष्टवन्तम्' इति अज्या. । n) नतराख्योपनिषद्विशेष- । o) तत्तदुपनिषदां द्वस. ।

प्रह्व- -भ्यम् सु १, १२.
 प्रहृ- -ष्ठा क १, २, ९.
 प्रहृम् वृ ३, १, २.
 १भाश्- -प्राशम् नी ३, ७.

प्रच्छय^० पित्र १, १६.

प्र√च्छद् छादि

प्रच्छादय कौ २, १५; जाद ६,
 ३४.

प्रच्छानि^० कौ १, १.

प्र√च्छद्

प्रच्छदन्-^१

प्रच्छदन्-विधारण- -णाम्याम्
 योस् १, ३४.

प्रच्य^० इ १८: २०.

प्र√च्यु

प्रच्युत- -त्: शा २६.

प्रजग्ध- प्र√पस् द.

प्र√जन्, > जा, जनि, प्रजायते छां २,
 १३, २; वृ ३, ९, २०, ५; ६, १, ६;
 ना १; कौ ४, १४; वृष १, ४;
 नाद १२; शां १, ७, १०; महा
 ४, ११५; ५, १८१; योशि १,
 ५३; ५, ३०; ४२; अक्ष ४, ४२;
 ४५; यो २, ४६; वरा २, ६१; ५,
 ४८; निरु १, २१; पि १०; १३;
 नापू ५, १२; शि ५, १६; ६,
 ८५; ७, ११०; सिशि ३८०:
 १४; ३८१: २; प्रजायन्ते प्र १,
 ३; १४; सुं २, १, १; तै २, २,
 १; मैत्रि ६, ११; १५; गर्भं ३;
 मना २, ७८; ७९; सुबा ६;
 योशि १, १५५; १५८; अव्य ६:

नापू ५, १९; प्रजायये तै २, ६, १;
 छां ६, २, ३; वृ १, ४, १७; शां
 ३, १; प्रजायेमहि छां ६, २, ४.
 प्रजनयति कौ १, २; प्रजनयत:
 सावि १०.

१प्र-जन- -न: तै १, ९, १; मना २,
 ७८.

२प्रजन- -न: गी १०, २८.

प्र-जनन- -नम् तै १, ३, ३; मना
 २, ७९; -ने मना २, ७८.

प्र-जनन-कर्मन्- -मां प्रा २, १.

प्र-(ज^०)जा- -जया तै १, ३, ४; ३,
 ६-९, १; छां २, ११-२०, २; ५,
 १५, १; १७, १; १९-२३, २; वृ
 २, १, ५; ४, ४, २२; ६, १, ६;
 ४, २४; कौ १, ३१; मना २, १२,
 ३१; कौ २, ८; ९; ४, ६; १४; वृष
 २, १, ०; १०; १०; १०; १०; १०;
 २३; २३; ७९: १०; -जा प्र ३, ११;
 तै १, ३, ३; ९, १; वृ १, ४, १७;
 ५, ७; २, १, ४; ५; ७; १३; कौ
 २, १०; ४, ६; १२; १३; -जा:
 प्र १, ३; ४; १४; २, ७; १०; सुं
 २, १, ५; तै २, ९, १; छां ४, १,
 ४, ६; ५, ३, २; ६, ८, ४; ६; ९,
 २; १०, २; ८, १, ५; ३, २; वृ १,
 २, ५; ५, २०; ६, २, २; खे ४,
 ७; कौ २, ८; १०; ११; मै २,
 ६, ५, ७; मैत्रि २, ६; ६, ७; १;
 ११; १५; ३७; ७, ७; ना १;
 मना १, ११; १५; २, ३८;
 ६३; ७९; अशि ६, १३;

सुबा ६; तै २, २०; श १५; महा
 ५, १६२; ६, ७९; अव्य ६; पायु
 १, १; वृ १०; इ ११: २३; सं
 २; वा १७; सार २३१: १;
 २८०: २२; वृ ३१७: २०;
 भव ४, २; वपू १, २; नी ३, १०;
 २४; १०, ६; -जानाम् प्र १, ८;
 सुं २, २, १; ३, १, ९; छां ४, ३, ७;
 मै ५, ८; मैत्रि ६, ८; १६; अव्य २;
 ५; ९; अशि १; वा १८; पा ३,
 २; वृ ३१६: १०; १शिसं
 २१; ५१; २शिसं ३१; ६१;
 ९; शि ६, १५७; -जामि: पा
 ३, १; -जाम्य: छां १, ३, १; ३,
 ११, ४; ८, १५, १; -जाम् प्र २,
 १; वृ १, ४, १६; ४, ४, २२; कर्
 १; मना १, २, ११; २, ४४;
 ४६; ५१; २संन्या १७:
 ६१; नापू ५, २०; १०; ३१;
 २३; कथु २, २; -जाया: मना
 २, ७९; -जायाम् छां १, ९, ३;
 कौ ४, १०; -जासु मना १, ३१;
 ४१; ३२; १शिसं ३१; २शिसं
 ४१.

प्रजा-काम- -म: प्र १, ४; -मा:
 प्र १, ९.

प्रजा-स्तु- -न्तु: इ ११: ५;
 -न्तुम् तै १, ११, १.

प्रजा-पति- -तय: सुबा १; सं
 ४; -तये छां ३, ११, ४; ८,
 १५, १; वृ ६, ३, ३; मना २,
 ६०; २संन्या १६: ९; कर् १;

a) =वृच्छा- । b) नैप्र. =ष्ट^०, लिपिप्रनादो वा द्र. । c) वृट्टिव: पा. । d) तैआ १०, ६२, १ । e) तैआ १०, ६३, १ । f) भावे कृत् । g) कर्त्तरि कृत् । h) तैआ १०, ६३, १ । i) पा ३, २, ९९ । j) तैआ १०, १०, ३ । k) मा ८, ३६ । l) °जा: इति निसा. (द्र. ध्यान., अज्या., शांआ ४, १०) यनि. शोध: द. (द्र. सस्य. दि. पूर्व, वां- > -वां) । m) 'प्रजाम्' इति तैआ १०, १०, १ । n) तैआ १०, ११, १ । o) प्र २, ९७, ४० । p) तैआ १०, ४८, १ । q) पा. ! (द्र. तैआआ १०, ६३) 'प्रजाम्' इति शोध: पुनरुक्तपहरक्ष साहचर्यसमन्वयकरथेति कृत्वा संभाव्य: । r) मा ३४, २ । s) मा ३४, ५ । t) तैआ १०, १०, १ । u) तैसं ३, ३, १, २ । v) प्र १०, १८, १ । w) तैआ ३, १५, १ । x) शौ ७, ८७, २ । y) प्र १०, १५७, २ । z) तैआ १, २७, ३ । a') 'प्रजाजम्' इति निसा. । b') मा ३२, ८ । c') 'तूद् आसीत्' इति मा ३२, १२ । d') मा ३४, ३ । e') तैआआ १०, ६७ ।

आपै २:२१; कथु २,३; -ति: प्र
१,४,९; १२-१४; २,७; ऐ५,३;
छां १,१२,५; १३, २; २,२३,
२; ३,११,४; ४,१७,१; ८,७,
१; ३; ४; ८,१; २; ४; ९,२; १०,
३; ११,२; १२,६; १५, १; वृ
१,५, १४; १५; २१; ३, ९, २;
६; १७; ५, ३, १; ५,१; ६,
४,२; २१; ५,४; खे ४, २; ५;
कौर, ९; ११; ४, १४; मै २, ५; ६;
४, ४, १२; ४, ५; ५, ६; ८; मैत्रि
२, ५; ६; ५, १; ३; ६, ६; ८; १५;
१६; ७, ७; आह १; ना १; मना
१, १; २; २; ४; २; ६; ८;
७; १; १; ४, २; ३; ७,
५; ७; ख १, १; ६; ८; ९; १६;
२, ८; १०; ३, २; ४, २; १५, १;
३; ५, २; १२; वृ ५, ३; ९,
१९; सुवा ५; ६; १३; मन्त्रि
१३; सी २; अक्ष १; अव्य २;
४; ५; ६; ए २; क १; जाद
४, ३; जावा २२; वा २४;
गोच ६९; १०; नाप ५, १२;
वृ ८; २; ५; गार ४०५;
१८; गु २; कथु २, २; चू १३; वृ
१, २; ४; २, १; वृ ३, ४, १; ४,
१७; गी ३, १०; ११, ३९; तिभि:
सार २३५; १६; -तिम् छां २,
२२, ४; ५, १, ७; वृ ५, ५, १;
मै २, ३; मैत्रि २, ३; मना २,
४; ५; ७; १०; ११; १२; १३;
४; १; १४; ५, १; ११; वृ १,

१; ७, १; ९, १; अक्ष १६; सुवा
९; सी १; अव्य ६; दे २; २ प्र
३४; १४; वृ ८; १; कथु २,
१; -ते मना २, ५; १; वृजा
७, ५; अव्य १; ३; पा ६, ८;
वृ ३, ४; ५; -ते: ते २, ८, ४; छां
२, २२, १; ३; ५; ८, १४, १; वृ ६,
५, ४; आह १; मै ५, ६; मैत्रि ६,
६; २९; ३३; नाप ४, ३; ५; म
२; अव्य ६; -सी छां ८, ११,
३; वृ ५, २, १; कौ २, १०;
सुवा ५.

प्राजापत्य, स्या- - -त्य
ई १६; वृ ५, १५, १; १५; -त्य: मना
२, ७; १; आह १; आध १;
-त्यम् वृ १, २, ७; ४, ४, ४; मैत्रि
६, ३; ना ३; मना २, ७; अशि
३, ६; शिता १, १; ४, २५; क १;
म १, ११; गोच ६७; १८;
पा १, ६; च २१; २०; वृ ३, १५;
५; गार ४०७; ५; ४०८; ९;
कथु २, ३; -स्या: छां १, २, १; वृ
१, ३, १; ५, २, १; -स्यात् गर्भ
२; -स्यानाम् छां २, ९, ५; -स्याम्
जा ४; नाप ३, ७; ५; ४१८;
८; या १, १.

प्राजापत्ये (त्य-द) छि-
-तिम् नाप ३, ९.

प्राजापति-लोक- -कम् कौ
१, ३; वृजा ७, ५; -का: वृ ३, ६,
१; सुवा १०; -के वृ ४, ३, ३;
-केषु वृ ३, ६, १; सुवा १०.

प्रजापति-व्रत- -तम् प्र १,
१५
प्रजापति-शक्र- -श्री काम ५.
प्रजापति-सकारा- -शम् छां
८, ७, २.
प्रजापती (ति-द) न्द्र-मनु-
-नव: दे १०.
प्रजा (जा-आ) पति- -ति: पा
१०, ८.
प्रजा-वृत्- -वृत् मना २, १९;
-वन्त: लि ३०२; ८;
प्रजे (जा-ई) दा- -दा: हे ७; -शाप
पा ६, ७; ८, ७.

प्र-जात- -त: व ४३७; १६;
प्र-जाति- -ति: ते १, ९, १; ३,
१०, ३; वृ ६, १, ६; १४; कौ
३, ५; -तिम् वृ ६, १, ६; कौ १,
७; २, १५; ३, ६; ७; ८; -ते:
३, ८; -स्यै वृ ६, ३, २.

प्रजातुम् मना २, ३६;
प्र-जायमान- -ना: वृ ६, १, ८-११.
प्र/जप्, प्रजपेत् नाप ४, २७; २९.
प्र-जपवां दे २०.

प्रिजिघाय कौ २, ३; ४.

प्र/जीव्, प्र... जीवति छां ३, १६, ७.
प्र-जीवन- -नम् शि ६, २२७.

प्र/हृप्, > शपि, प्रहृपेत् कौ ३,
७; प्रहृपेताम् कौ ३, ७.
प्र-हृति- -ते: गौ ४, २४; २५.

प्र/ज्ञा, > जा, ज्ञापि, प्रजानाति गौ
१८, ३१; प्रजानामि गौ ११,
३१; प्रजानीहि ऐ २, १.

a) श्र १०, १८४, १। b) मा ३२, १। c) शौ १०, ८, १३। d) 'उपस्थाय' इति मा ३२, ११।
e) तैशा १०, ३१, १। f) तैशा १०, ६३, १। g) मा ८, ३६। h) तैशा ३, ७, २। i) श्र १०, १२१, १०।
j) पाय २, २, १०। k) मंत्रा १, ५, १०। l) वैपरी यद। m) का ४०, १, १७। n) 'प्रजापत्ये' इति श्रव्या।
o) न. द्वि. १। क्विपि. वा विप. वा?। p) तैशा १०, ४९, १। q) श्र १०, ५७, ६। r) श्र १, ६९, १। s) 'पति:
इति निसा.। t) 'पति: इति निसा., आन. संति.। u) 'पतिम् इति निसा., आन. सति.। v) 'प्रनाम्' इति शंखा
३, ७। w) पा. १ (तु. तैशाशा १०, ३६) 'मजु' इति शोध: द. (तु. शौ १९, ७१, १; तत्रत्ये <मजु> मजु इत्यत्र
वैपरी यस्या. टि. च)। x) पा ७, १, ३८। y) पा. १ (तु. आन. प्रजिघाय) 'प्रघाय' इति शोध: द. (तु. वैप २,
११५९)। z) 'प्रज्ञापयेत्' इति आन., श्रव्या। a') 'प्रहृपेताम्' इति आन., श्रव्या।

प्राज्ञासिपम् कौ ३, ७^१९.
 प्रज्ञापते, प्रज्ञायन्ते वृ ४, १, २;
 प्रज्ञापेत कौ ३, ७.
 प्रज्ञापयन्ति कौ ३, २.
 प्र-ज्ञानत्- -नन् क १, १, १४;
 २८.
 प्र-ज्ञ- -ज्ञः सुवा ५; -ज्ञम् मां ७;
 वृ ४, ७; वृ १, १२; नाप ८,
 १९; राठ ३, १; वठ १, १३;
 -ज्ञेन ऐ ५, ४; आबो १.
 १ प्राज्ञ^०- -०ज्ञ जाद ३, ५;
 ६, ५१; ८, ५; -ज्ञः क १, ३, १३;
 मैत्रि ७, ६; ऋवि १९; नाप ६,
 २४; रा २, ५६; महा ४, ३९;
 १०८; ५, १०६; ६, ७६; योशि
 १, ७२; १संन्या २, ७; अज २,
 ३१; ४, ६१; जाद ६, १५; शि
 १, २६; ४, ६५; ऋ १, ४, ५;
 -ज्ञम् अध्या १५; -ज्ञस्य महा
 ५, १६९; -ज्ञाः जाद २, ५; मव
 १, ४४; -ज्ञेन महा ४, २१.
 २ प्राज्ञ^०- -ज्ञः मां ५;
 ११; गौ १, १-३; ११-१४; कौ ४,
 १५; १९^१; २०^१; वृ ४, ६;
 वृ १, ८; २, ७; ते ६, १०; नाप
 ५, १; ८, १३; योचू ७२; मं २,
 ४, ४; राठ ३, १; पै २, ३०;
 अङ्घ्रि ४४; यो ३, २१; वरा १,
 ११; विद्या १; वठ १, १०; ५,
 ३७; ५१; -ज्ञम् गौ १, ४; २३;
 -ज्ञस्य गौ १, २१; पै २, ३०;
 पप ४१९: २६; -ज्ञे वृ ९,
 ३; -ज्ञेन वृ ४, ३, २१; ३५; छाग
 २५: १३.
 प्राज्ञ-गुरीय^०- -यः

पप ४१९: २६.
 प्राज्ञ-गुर्य^०- -यंयोः
 गौ १, १३.
 प्राज्ञ-सैजस^०- -सः
 पप ४१९: २६.
 प्राज्ञ-स्व- -स्वम् पै २,
 ३०.
 प्राज्ञ-प्राज्ञ^०- -ज्ञः पप
 ४१९: २६.
 प्राज्ञ-विष^०- -षः पप
 ४१९: २६.
 प्राज्ञा(ज्ञ-आ)मक-
 -कः राठ २, २; गौ ४३.
 प्राज्ञ-वत् ऋ २, ३, २९.
 प्रज्ञ-वा- -ता वृ ४, १, २.
 प्र-ज्ञा- -ज्ञया गौ ३, ४५; ऋ ३,
 १४; कौ १, ५; ७; ३, २; ६^१९;
 ऋवि २७; १योल ६; महा ४, १;
 ५, १७५; योशि १, ४; ६, ५८;
 अज १, २७; अध्या ४६; -ज्ञा
 ऐ ५, ३; वृ ४, १, २; ये ४, १८;
 मना २, ६४^१; कौ १, ५; २,
 ३; ३, ३^१; ४^१; ५^१; मैत्रि ६,
 ३१^१; आबो १; शां २, १; महा
 ५, १७३; अज १, ४८; अध्या
 ४, ४; सर १, ४; इ ११: ६; गार
 ४०७: १७; शु ६१; योसू १,
 ४८; २, २७; गौ २, ५७; ५८;
 ६१; ६८; -ज्ञाम् प्र २, १३; वृ
 ४, ४, २१; द२; महा ४, ४; अज
 ४, ३७; ५, ७१; वरा ४, ३३; शा
 २३; हं ७; ८; शि १, ६; विद्या ४; व
 ४३५: १४; मव १, ५०; गौ २,
 ६७; -ज्ञायाम् कौ ३, ४^१६.
 प्राज्ञा-काम- -मः सूता १, २१.
 प्राज्ञा-घन- -नम् नाप ८, २०.

प्रज्ञा(ज्ञा-आ)मन्- -म्ना कौ ३,
 २; ३; ९; -म्नामन् कौ २, १४^१.
 प्रज्ञा(ज्ञा-आ)दि- -दीनाम् शु
 १, १०.
 प्रज्ञा-नेत्र- -त्रः ऐ ५, ३; आबो
 १; -त्रम् ऐ ५, ३.
 प्रज्ञा-नौ- -नावम् महा ५, १७६.
 प्रज्ञा(ज्ञा-अ)न्तर- -वृथक्त्व-
 प्रज्ञान्तरवृथक्त्व-वत् ऋ
 ३, ३, ५०.
 प्रज्ञा(ज्ञा-अ)पेत, वा- -तः कौ ३,
 ७^१; -तम् कौ ३, ७^१; -तौ कौ ३,
 ७^१.
 प्रज्ञा-मयिन्- -या^१ शि ७,
 १३२.
 प्रज्ञा-मात्रा- -त्राः कौ ३, ८^१;
 ९; -त्रासु कौ ३, ९.
 प्रज्ञा-मेघा-पद- -दम् द १२.
 प्रज्ञा(ज्ञा-आ)लोक- -कः योसू
 ३, ५.
 प्रज्ञा-वाद- -दात् गौ २, ११^१.
 प्रज्ञा-सौख्य- -ख्यम् शि ६,
 २८०.
 प्र-ज्ञात- -तः ऋवि १०१.
 प्र-ज्ञातव्य- -व्यम् कौ ३, ७.
 प्र-ज्ञात्- -ता त्रिता ५, १.
 प्र-ज्ञान- -नम् ऐ ५, २; ३; कौ २,
 ४^१; शु २, १; ३, १; २; आबो
 १; महा ४, ८१; वरा २, १९; ह
 १३; व १६; इ १४: १९; म
 ४८: १४; १शिसं ३^१९; २शिसं
 ४^१९; -नस्य ऐ ५, २; -नाय ऋ ७
 २४; -ने ऐ ५, ३; आबो १^१;
 -नेन क १, २, २४; नाप ९, १९;
 महा ४, ६९.

- a) 'प्राज्ञासिपुः' इति शांथा ५, ७^१; 'प्राज्ञासिपम्' इति अथ्या. । b) पा ५, ४, ३८ । c) =आत्मन
 अवस्थविशेष- । d) 'प्रज्ञामा' इति शांथा ६, २० । e) कस्य. । f) दस. । g) सकृत् 'मनसा' इति शांथा ५, ६ ।
 h) पा.। (तु. तैश्चा १०, ६४) °ज्ञाम् इति शोधः द. । i) 'मनः' इति शांथा ५, ५ । j) 'प्रज्ञानम्' इति आन., सात. ।
 k) °ज्ञायै इति शांथा ५, ४ । l) टि-स्लेपः (पा ६, १, ८८) । m) 'प्राज्ञवत्' इति SCHR. (वितु. वे. (NIA २, २३१)) ।
 n) 'प्रज्ञाम्' इति आन., शांथा ४, ४ । o) मा ३४, ३ । p) 'प्रज्ञानेत्रे' इति अथ्या. ।

प्रज्ञान-घन,ना-नः मां ५; वृ
 ४,५,१३; वृत् १,८; ८,४; सुवा
 ५; राउ ३, १; वउ १, १; ५,
 ३६; -नम् मां ७; वृपू ४,७;
 वृउ १,१२; राउ ३,१; अत्ति
 ४९; जाद ४,६०; वउ १,१३;
 ५,३९; -नाम् विद्या ४.
 प्रज्ञानघन-लक्षण-णः अक्ष
 ४,२७; करु ८.
 प्रज्ञानघन-वत्- -वान् नाप
 ८, १२.
 प्रज्ञान-वाक्य-हीना(न-आ)-
 रम्- -रमा ते ७,७७.
 प्रज्ञापयितुम् कौ ३,२.
 प्र-ज्वल, > ज्वलि, ज्वालि, प्रज्वलति
 त्रिवि ६,२४; ७,१-८; १२; २९;
 ४९; प्रज्वल-भ्रज्वल वपं ३१२;
 १; व ४३९; १०; ११; ४५७; ५;
 प्रज्वलेत् योशि १,७४.
 प्रज्वलय-प्रज्वलय लां २१५;
 २१.
 प्र-ज्वलत्- -लन्तम् त्रिवि ६,२०;
 २३; ७,५०; सि २,८.
 प्रज्वलद्-वह्नि-ग- -गम् भ २,
 १५.
 प्र-ज्वलन- -नम् योसु ३,४१.
 प्र-ज्वलित,ता- -तम् सि ४,७,५,
 १२; ६,७; -ता सार २३९; २१.
 प्र-ज्वल्य वरा ५,३७; शि ४,४९.
 प्र-ण(<न)ख- -खत् छां १,६,६.
 प्र-ण(<न)म्, प्रणामसि सु १,१,५;
 म ४८; ४; प्रणमेत् १योट ३६;
 या २,३; ४; शि ७, ७२.
 प्रणामसि सूता १, २.
 प्र-णत- -तः योच् ७३^२; अक्ष १,

१७; गोपू २५; -ताः दे ३; पा
 १,१०; -ताय मुद्र २,१.
 प्रणत-पाल- -लाय गोपू ४०.
 प्र-णति-
 प्रणति-ब्रह्मचर्यो(र्व-उ)पसर्पण-
 -गानि सांस् ४,१९.
 प्र-णम्य कै १,५; त्रिवि १,४; रा
 १,७; पप ४१७; १; अक्ष १,
 १; रुह २; भ १,१,२,१; ऊद ३;
 १; वि १; ३; गी ११, १४; ३५;
 ४४.
 प्र-णाम- -मः या २,१.
 प्र-ण(<न)श्(अदर्शने), > णादि,
 प्रणश्यति मैत्रि ६,२७; नाप ४,४;
 त्रिद्वार, २०; राउ ५, २४; यो २, ३१;
 गी २, ६३; ६, ३०; ९, ३१; प्रण-
 श्यन्ति योशि १,१४६; राउ ५, ९;
 दत्ता १, ७; गी १, ४०; प्रणश्यामि
 गी ६, ३०.
 प्रणाशय-प्रणाशय गरु ६.
 प्र-णाश- -शम् वरा ३, ११.
 प्र-णष्ट- -ष्टः गी १८, ७२; -ष्टम्
 शि ६, २७९^१; गरु ९; १२^१;
 २४^१.
 प्र-णि(<नि)/घा
 प्रणि-धान- -नात् गर्भ १^०.
 प्रणि-धाय गी ११, ४४.
 प्र-णि(<नि)/पत्, प्रणिपतति लि
 ३११; २.
 प्रणिपपात अय्य २.
 प्रणि-पत्य सु १, १^१; ३, १९; १योट
 ३; सूता २, १; का १; नार १;
 शि ६, ८१.
 प्रणि-पात- -तम् सार २२५; १५;
 १७, -तेन गी ४, ३४.

प्रणिपात-पुरस-सर,रा- -रम्^१
 सार २१९; १२; २६८; १७;
 -राः सार २३०; ९.
 प्र-णी(<नी), > णायि, प्रणीयते के
 १, ८^१; प्र ४, ३.
 प्रणाययति अशि ४, ३^१; अ
 १^१; वृत् ३१५; १८^१.
 प्र-णय- -येन गी ११, ४१.
 प्र-णयन- -नात् प्र ४, ३.
 प्र-णाट्य^१- -ट्याय छां ३, ११, ५.
 प्र-णीत^१-
 प्रणीतित्- -ती वा २४.
 प्र-णेत- -ता मैत्रि ६, २५; -तारम्
 मै ५, ४; मैत्रि ६, ४; २५; ७, ५.
 प्र-णु(<नु), प्रणौति छां १, ४, ५;
 प्रणौमि दे १०.
 प्र-णव^१- -वः सुं २, २, ४; छां १,
 ५, १^१; ५^१; गी १, २५; २६^१;
 २७; मै ५, ४^१; मैत्रि ६, ४^१;
 अशि ३, १०^१; ४, २; ४५^१; अ
 १५^१; ध्या १४; १७; १योट ६४;
 ७४; ७७-७९; त्रिवि ७, ३०;
 रा १, ७; २, ५२; शो १, ६;
 पाशु १, ३२; पत्र २^१; जाद ६,
 २; वरा ५, ७१; वृ ११; १४;
 २प्र ३४; ४; शो ५२; ५; ५३;
 ११; पा १, ६; वृत् ३१५; ११^१;
 १७; १९५^१; सु ८१; योसु १,
 २७; गी ७, ८; -वम् खे १, १४;
 गी १, २७; २८; कै १, ११; प्र ३;
 ९; लपू १, ६; ७^१; ४, २५; १८^१;
 वृत् ३, ९; ६, ४; सु १, ८; य्या
 २२; १योट ६३; आशो १; योच्
 ८८; रा १, ७^१; शो १, ६; १संन्या
 २, १०४; पाशु १, १७; १९; पत्र २;

a) 'ज्वलनम्' इत्यपि पाठे. । b) पा. १ [ड. निता. (१९३२)] प्रणव->-वः इत्येवं शोधः द. (ड. अख्या.) । c) पा ८, ४, ३६ । d) 'ण' इति सुपा. यनि. शोधः द. । e) 'प्रतिविधाः' इति अख्या. । f) वा. क्रिवि. द. । g) म^१ इति निता. । h) 'प्रणामयति' इति पा. यनि. शोधः द. । i) 'प्रणालयति' इति निता. 'प्रणामयति' इति आन. अख्या. च पा. यनि. शोधः द. । j) पा ३, १, १२८ । k) भावे निष्ठा । l) =चोप्- । व्यु. निस्तरान्तरं वैपश् यद. । m) 'प्रणयः, प्रणवहंसः' इति निता. ।

जाद ६, ४; ८; या २, १; शौ
५१:७; ५२:१८; ५३:५; नापू
४, १६; वृष ८४: १६; २शिसं
२०; २१; स ३७९: १७; वउ
५, २०; -वस्य वृपू २, २; वृउ
३, १; २; ध्या १८; ३७; प्रवि ९;
योचू ८०; वरा ५, ७०; १प्र३१:
१६; -वात् नाप ५, १; योचू ७६^३;
७७; -वानाम् अशि ७, ६; राउ
५, ४; पै ४, २३; महा ६, ८३; ता
३, १; च २१: १२; -वाम्याम्
राउ ३, १; रापू ४, ४२; -वे गौ
१, २५^३; २प्र ३४: ४; शौ ५३:
११; -वेन श्रे १, १३; श्रुजा ३,
१२; २५; ३०; ३२; ४, १^३; ६, ७;
वृउ ४, ३; ६, ३; वृ ३; ध्या १००;
त्रिवि ५, १२; वा १५; १९; ३७;
पप ४१८: २२; जाद ६, ३३; ४१;
८, ९^४; धरा ५, ३४; सर २, १;
का ५; गोच ६६: १४; १८; -वै:
शा १३.
प्रणव-कर्णिका- -कायाम् त्रिवि
७, २७.
प्रणव-कीर्तन-पर- -र: नाप ५,
१.
प्रणव-गरुड- -डम् त्रिवि ५, १२^३.
प्रणव-त्व- -त्वात् सी ८; राउ
५, १६; राउ २, ४; विद्या १; -त्वेन
गोउ ४४.
प्रणव-पर्यन्त- -दीर्घ-नि:स्वन-
सन्तु- -न्तुना अज ३, १४.
प्रणव-पूर्वक- -कम् पप ४१८:
३२; ३३; नाप ४, ३८.
प्रणव-प्रकृति-रूप-
प्रणवप्रकृतिरूप-व- -त्वात्
सौ २.

प्रणव-बहुविध-ध्यान-संली-
न-चित्त- -त्ता: सौ २, ३.
प्रणव-मध्य- -ध्ये त्रिवि ७, ३०.
प्रणव-मन्त्र- -न्त्रात् राउ १, ७^३.
प्रणव-मय-
प्रणवमय-विकार- -सौ सावि
१०.
प्रणवमयो(य-ऊ)ध्वं-पुण्डू-
-ण्ड्रा: वा १७^०.
प्रणवमयोर्ध्वंपुण्डू-त्रया-
(य-श्रा)त्मक- -का: गोच ६६:
१७.
प्रणव-महावाक्य-प्रहणा-
(ए-अ)र्ध- -र्धम् नाप ४, ३८.
प्रणव-महावाक्यो(क्य-उ)पदे-
श- -शाम् नाप ४, ३८.
प्रणव-माला-युक्त- -कम् त्रिवि
७, ३१; ३२; ३६; ४८.
प्रणव-माला-संयुक्त- -कम्
त्रिवि ७, ४६.
प्रणव-युक्त-शिव-पद्माक्षर-
मन्त्र- -न्त्र: त्रिवि ७, ३०.
प्रणव-रूप- -पम् मं २, २, १^३.
प्रणव-व्याहृति-पूर्वक- -कम्
पप ४१८: २५.
प्रणव-शिरस-
प्रणवशिरस-क-
प्रणवशिरस्का-
(स्क-आत्मक)>स्विका- -०के
सावि १०.
प्रणव-श्रीबीज-संपुटित-
नारायण-बीज- -जम् त्रिवि ७,
४४.
प्रणव-श्रीबीज-संपुटित-राम-
कृष्ण-माला-मन्त्र- -न्त्रौ त्रिवि
७, ४६.

प्रणव-श्रीबीज-संपुटिता-
(त-अ)मृत-बीज-द्वय- -यम्
त्रिवि ७, ४८.
प्रणव-संपुटित- -सौ त्रिवि ७,
४५^३.
प्रणवसंपुटित-गरुड-पद्मा-
क्षर-युक्त- -कम् त्रिवि ७, ४३.
प्रणवसंपुटित-महानील-
कण्ठ-मन्त्र-वर्ण- -र्णानि त्रिवि
७, ४७.
प्रणवसंपुटित-श्री-बीज-
युक्त- -कम् त्रिवि ७, ४४.
प्रणवसंपुटिता(त-अ)मि-
बीज-युक्त- -कम् त्रिवि ७, ४१.
प्रणवसंपुटिता(त-अ)कुशा-
बीज-युक्त- -कम् त्रिवि ७,
४२.
प्रणव-स्था(स्थ-अ)कार- -रस्य
राउ १, ७^४.
प्रणव-स्वरूप- -पम् ना ४;
आयो १; त्रिता ४, २५; किं
३१०: २०; ३११: २; -पस्य
वउ ५, ३.
प्रणव-हंस-शिलो(ला-उ)पवीत-
प्रणवहंसशिलोपवीतिन्-
प्रणवहंसशिलोपवीति-
त्व- -त्वम् पत्र ३.
प्रणव-हंस-सूत्र- -त्रेण पाशु १,
२२^१!
प्रणव-हंसा(सि-अ)मृत्-प्या-
न-प्रकृति- -तिम् पाशु १, २६^१.
प्रणवा(व-अं)शक- -के ध्या
१०-१२.
प्रणवा(व-आख्या)>श्व- -श्वय:
मैत्रि ६, २५; -श्वम् मै ५, ४; मैत्रि
६, ४; २५; ७, ५; त्रिवि ७, २२.

- a) 'बिन्दुनादकलातीतम्' इति निशा. । b) 'वे इति अञ्ज्या. । c) वा. त्रिवि. द्र. । d) 'वं मन्त्रात् इति अञ्ज्या., 'न्त्रम् इति अञ्ज्या. संति. । e) 'ण्डः इति अञ्ज्या. । f) 'वस्वरू' इति निशा., अञ्ज्या. संति. । g) 'ला: इति निशा. । h) 'वस्याका' इति अञ्ज्या. । i) 'ग्रहमवृत्तितय' इति अञ्ज्या. ? यनि. शोष: द्र. (द्र. निशा.). । j) 'न्वर्धानप्रकृति: इति अञ्ज्या. संति. ।

प्रज्ञान-घन,ना- -नः मां ५; वृ
४,५,१३; वृत् १,८; ८,४; सुवा
५; राठ ३, १; वड १, ९; ५,
३६; -नम् मां ७; वृत् ४, ७;
वृत् १, १२; राठ ३, १; अङ्गि
४९; जाद ४, ६०; वड १, १३;
५, ३९; -नाम् विद्या ४.

प्रज्ञानघन-लक्षण- -णः अक्ष
४, २७; कठ ८.

प्रज्ञानघन-वत्- -वान् नाप
८, १२.

प्रज्ञान-वाक्य-हीना(न-श्वा)-
स्मन्- -स्मा ते ४, ७७.

प्र-क्षापयितुम् कौ ३, २.

प्र/ज्वलू, > ज्वलि, ज्वालि, प्रज्वलति
त्रिवि ६, २४; ७, ६-८; १२; २९;
४९; प्रज्वल-प्रज्वल वपं ३१२;
१; व ४३५: १०; ११; ४५७; ५;
प्रज्वलेत् योशि १, ७४.

प्रज्वलय-प्रज्वलय लां २१५:
२१.

प्र-ज्वलत्- -लन्तम् त्रिवि ६, २०;
२३; ७, ५०; सि २, ८.

प्रज्वलत्-वृद्धि-न- -नम् अ २,
१५.

प्र-ज्वलन- -नम् योस् ३, ४१९.

प्र-ज्वलित,ता- -तम् सि ४, ७; ५,
१२; ६, ७; -ता सार २३९: २१.

प्र-ज्वालय वरा ५, ३७; शि ४, ४९.

प्र-ण(<न)ख- -खाय छां १, ६, ६.

प्र/ण(<न)म्, प्रणमामि सु १, १, ५;
म ४८: ४; प्रणमेत् १योत् ३६;
या २, ३; ४; शि ७, ७२.

प्रणनाम सूता १, २.

प्र-णत- -तः योव् ७३?; अक्ष १,

१७; गोपू २५; -ता: दे ३; पा
१, १०; -ताय सुद्र २, १.

प्रणत-पाल- -लाय गोपू ४०.

प्र-णति-
प्रणति-ग्रहचर्यो(र्वे-उ)पसर्पण-
-णानि सोस् ४, १९.

प्र-णम्य कै १, ५; त्रिवि १, ४; रार
१, ७; पप ४१७: १; अक्ष १,
१; रुद्र २; अ १, १; २, १; ऊद ३:
१; वि १; ३; गी ११, १४; ३५;
४४.

प्र-णाम- -मः वा २, १.

प्र/ण(<न)शु(अदर्शने), > णाशि,
प्रणश्यति मैत्रि ६, २७; नाप ४, ४;

त्रिमात्र, २०; राठ ५, २४; यो २, ३१;

गी २, ६३; ६, ३०; ९, ३१; प्रण-
श्यन्ति योशि १, १४६; राठ ५, ९;

दत्ता १, ७; गी १, ४०; प्रणश्यामि
गी ६, ३०.

प्रणाशय-प्रणाशय गरु ६.

प्र-णाश- -शाम् वरा ३, ११.

प्र-नष्ट- -ष्टः गी १८, ७२; -ष्टम्
शि ६, २७९?; गरु ९; १२?;

२४?.

प्र-णि(<नि)✓धा
प्रणि-धान- -नात् गर्भं १०.

प्रणि-धाय गी ११, ४४.

प्र-णि(<नि)✓पत्, प्रणिपतति लि
३११: २.

प्रणिपतात् अव्य २.

प्रणि-पत्य शु १, १?; ३, १९; १योत्
३; सूता २, १; का १; नार १;
शि ६, ८१.

प्रणि-पात्- -तम् सार २२५: १५;
१७; -तेन गी ४, ३४.

प्रणिपात्-पुरस्-सर,रा- -रम्^१
सार २१९: १; २६८: १७;

-रा: सार २३०: ९.

प्र/णी(<नी), > णायि, प्रणीयते के
१, ८^१; प्र ४, ३.

प्रणाययति अशि ४, ३^१; अ
१^१?; वड ३१५: १८^१?

प्र-णय- -येन गी ११, ४१.

प्र-णयन- -नात् प्र ४, ३.

प्र-णाव्य^१- -व्याय छां ३, ११, ५.

प्र-णीत^१-
प्रणीतिन्- -ती वा २४.

प्र णेत्- -ता मैत्रि ६, २५; -ताम्
मै ५, ४; मैत्रि ६, ४; २५; ७, ५.

प्र/णु(<नु), प्रणौति छां १, ४, ५;
प्रणौमि दे १०.

प्र-णव^१- -वः सुं २, २, ४; छां १,
५, १^१; ५^१; गी १, २५; २६^१;

२७; मै ५, ४^१; मैत्रि ६, ४^१;
अशि ३, १०^१; ४, २; ४^१;^१; अ

१^१;^१; ध्या १४६; १७; १योत् ६४;
७४; ७७-७९; त्रिवि ७, ३०;

रार १, ७; २, ५२; शौ १, ६;
पाशु १, ३२; पत्र २^१; जाद ६;

२; वरा ५, ७१; वृ ११; १४;
२प्र ३४: ४; शौ ५२: ५; ५३^१;

११; पा १, ६; वड ३१५: ११^१;
१७; १९^१; शु ८१; योस् १,
२७; गी ७, ८; -नम् ये १, १४;

गी १, २७; २८; कै १, ११; म ३;
९; वृत् १, ६; ७^१; ४, २; ५, १८^१;

वृत् ३, ९; ६, ४; शु १, ८; व्या
२२; १योत् ६३; आबो १; योच्
८८; रार १, ७^१; शौ १, ६; १संन्या

२, १०४; पाशु १, १७; १९; पत्र २;

१७; -तेन गी ४, ३४.

२, १०४; पाशु १, १७; १९; पत्र २;

a) 'ज्वलनम्' इत्यपि पाठे. । b) पा. ? [तु. निसा. (१९३२)] प्रणव-> -वः इत्येवं शोधः द. (तु-
अव्या.) । c) पा ८, ४, ३६ । d) ०^१ इति सुपा. यनि. शोधः द. । e) 'प्रतिविधाः' इति अव्या. । f) वा.
क्रिवि. द. । g) मा^१ इति निसा. । h) 'प्रणामयति' इति पा. यनि. शोधः द. । i) 'प्रणानयति' इति निसा.
'प्रणामयति' इति आन. अव्या. च पा. यनि. शोधः द. । j) पा ३, १, १२८ । k) भावे निष्ठा । l) =ओम्- ।
शु. विस्तरान्तरं वैप १ यद. । m) 'प्रणया, प्रणवहंसः' इति निसा. ।

प्रति-क्षण- - गम् महा ४, ६; सार
२२१:१; २२३:८; २३७:१६;
२२; २५५:१२; २५९:५; ७;
२७०:१३; २७४:१८; २७९:
१०; २८६:२०; २२; -गम्-गम्
सार २२८:१३.

प्रति/गृह, ग्रह, प्रतिगृह्णाति छां
६, १६, १; २; वृ ४, ३, ३;
५, १४, ५; गा १८; प्रति-
गृह्णाति इ १५:१०; १६:२१;
प्रतिगृह्णीयात् वृ ५, १४, ६;
वृ २, १; १संन्या १, १७; दत्ता
३; गा १९-२६; कथु १, १.

प्रति-गृहीत- -तम् वृ ६, १, १४°.

प्रति-गृह्ण- -ह्ण्वा १८; -ह्ण्तः
आभ्र २°.

प्रति-गृह्ण- -ह्ण्वा १, १०, ५; १संन्या २,
१६; कथु १, १.

प्रति-ग्रह- -हः मना १, १२५^०;
-हम् मना २, ३०५^०; नाप ४, ८; प्रा
१, ६५^०; इ १४:६; -हाः अशि
२, ९; -हाव मना १, १३५^०;
-हेषु इ १४:१५.

प्रतिग्रहिव्- -ही १संन्या २, १५.

प्रति-ग्रह- -हाम् १संन्या २, १३.

प्रति/गृ(स्तुतौ), > गृ, प्रतिगृणाति तै
१, ८, १.

प्रति-गर- -रम् तै १, ८, १.

प्रति/चक्ष्(दर्शने)

प्रति-चक्षण- -णाय वृ २, ५, १९.

प्रति/च्छद्

प्रति-च्छन्न- -न्नः नाप ५, १३१^०.

प्रति/जन् > जा, प्रतिजायसे प्र२, ७.

प्रति/ज्ञा, > जा, प्रतिजानीते पाशु १,
२३; प्रतिजाने गी १८, ६५;

प्रतिजानीहि गी ९, ३१.

प्रतिजज्ञे छां ४, १, ८; ९, २; १४, ३.

प्रति-ज्ञा-

प्रतिज्ञा-दृष्टान्ता(न्त-अ)न्-

उपरोध- -धात् ब्रम् १, ४, २२.

प्रतिज्ञा-सिद्धि- -द्धेः ब्रम् १, ४,
२०.

प्रतिज्ञा-हानि- -निःब्रम् २, ३, ६.

प्रतिज्ञो(ज्ञा-उ)परोध- -धः ब्रम्
२, २, २१.

प्रति-ज्ञात- -त्तः वृ ६, २, ५.

प्रति-ज्ञान- -नात् ब्रम् ४, ४, २.

प्रति-दल- -लम् सार ३, १.

प्रति/द्वह, प्रतिधक्षयति छां २, २२, ४.

प्रति-दिन- -नम् १योत ६८; ७२;
वा ४; गोच ६६:१.

प्रति-दिवस- -सम् आभ्र २.

प्रति-दिश- -दिशः अशि १, ५^१.

प्रति-देवता- -तासु सुं ३, २, ७.

प्रति/घा, प्रतिधीयते ऐ ४, ४.

प्रति/घाव्(गसौ), प्रतिधावन्ति कौ
१, ४५^१.

प्रति/नद्व, प्रतिनेदुः शु ३, २, १.

प्रति-नाडी- -डीषु छ १७.

प्रति-नियत-

प्रतिनियत-कारण-

प्रतिनियतकारण-त्व- -त्वात्

सांस् ५, ६.

प्रतिनियतकारण-नादय-

प्रतिनियतकारणनादय-त्व-

-त्वम् सांस् ६, १४.

प्रति-नियम- -मः सांस् ६, १५;

-मात् सांका १८.

प्रति-न्याय- -यस् वृ ४, ३, १५-१७;

३४; ३६.

प्रति-पक्ष-

प्रतिपक्ष-भावन- -नम् योस् २,
३३; ३४.

प्रति-पङ्क्ति- -ङ्क्ति सार २७४:१७.

प्रति/पद्, > पादि, प्रतिपद्यते प्र ४,

१०; छां ३, १३, ६; वृ ४, ३,

१४; त्रिता १, ५०^०; ३, १३; पं

२२; आर्षे ९:२; निह २, ९;

पिन ४, १०; गी १४, १४; प्रति-

पद्यन्ते प्र १, ९; वृ ६, २, २;

२प्र ३५:१९; शौ ५१:१४;

५२:१०; सांका ३१; प्रतिपद्ये

सार २५९:२१; प्रत्यपद्यत शौ

५१:१; प्रत्यपद्यन्त सार २४६:

१७; प्रतिपद्यत छां ३, १७, ६.

प्रतिपेदे छां ६, ७, ४; वृ १, ४,

१०; ३, ९, १; प्रतिपेदिरे आर्षे

९:२०; २प्र ३६:१४; सार

२४०:१६; २९२:४; प्रति-

पत्ये छां ५, ११, ३.

प्रतिपादयन्ति इ १३; प्रति-

पादयेत् सुं १, २, २.

प्रतिपाद्यते सार ३, १४; नाउ ३,

२; प्रतिपाद्यन्ते गार४७०:१७.

प्रति-पति- -त्तिः योस् ३, ५४;

-त्तिभिः गोपु १८.

प्रतिपरव(ति-अ)भिसंधि- -धिः

ब्रम् ४, ३, १४.

प्रति-पद्- -पत् सं २, १, ६^१; ५^१;

यो ३, १; -पदम् वृ ६, २, २.

प्रतिपद्-दिन-

प्रतिपदिन-तस(>)यो ३, २.

प्रति-पद्य सार २४०:४; २४६:६;

२५१:१.

प्रति-पद्यमान- -नः सार २८०:१०;

-नाः छां ४, १५, ५; सार २४६:

१३; -नौ सार २८९:९.

प्रति-पक्षवत्- -वाम् जाद २, ४.

प्रति-पादन- -नम् निर्वा २९७:७.

a) अस. । b) सकृत् 'प्रतिगृह्य' इति श्रव्या. । c) परिगृह् इति निसा. । d) तैश्चा १०, १, १२ । e) तैश्चा

१०, २३, १ । f) तैश्चा १०, १, १३ । g) 'अक्ष' इति निसा. यनि. शोधः द. (दृ. श्रव्या.) । h) मलो. कसं. ।

i) 'प्रदिशः' इति श्रान., 'विदिशः' इति श्रव्या. । j) 'प्रतियन्ति' इति श्रान., वे., शांश्चा ३, ४ । k) 'प्रतिपाद्यते'

इति श्रव्या. संदि. ।

प्रणवा(व-आ)ःमक-कः योचू
१०१; -कम् अ १; त्रिवि १, ५.
प्रणवारिमका-का सी
१७; वरा ४, १.
प्रणवारमक-स्य-स्येन त्रिवि
१, ५; तुज २३.
प्रणवारमक-ध्वन्या(नि-आ)-
कार-रम् सि ६, ३८.
प्रणवा(व-आ)ःमन्-रमानम्
२शिसं २१.
प्रणवा(व-आ)दि-
प्रणवादि-ध्वनि-निम् मं
२, २, २.
प्रणवादि-नमो(मस्-अ)न्त-
न्ताः त्रिवि ७, ४१; ४२; ४७;
४८; रार ३, १; सौ १, ३; न्तैः
सौ १, १; ३.
प्रणवादि-मन्त्र-न्त्राः
त्रिवि ७, ४२.
प्रणवाद्य(दि-अ)खिलमन्त्र-
वाचक-वाच्य-च्यः त्रिवि
१, ११.
प्रणवाद्य(दि-अ)खिलमन्त्रा-
(न्य-आ)ःमक-कम् त्रिवि १, ५.
प्रणवा(व-आ)दिक-काः तृपू
१, ६.
प्रणवा(व-आ)धार-राः पाशु
१, २४.
प्रणवा(व-अ)धिकार-रः रार
१, ७.
प्रणवा(व-अ)नुष्ठान-नम् पप
४१९=२.
प्रणवा(व-अ)नुसंधान-पूर्वक-
कम् त्रिवि ५, १२.

प्रणवा(व-अ)न्तर-गत-तम्
शु १, १०.
प्रणवा(व-अ)न्तर-वर्तिन्-तीं
पाशु १, १७.
प्रणवा(व-अ)युत-कोटि-जस-
सः दत्ता ३.
प्रणवै(व-ए)क-ध्यान-परा-
यण-णः पप ४१८=२७.
प्रणवो(व-ओ)कार-रम् २शिसं
२१.
प्रणवो(व-उ)द्वीय-थ ह ५.
प्रणवोद्वीय-वपुस-पुपे
त्रिवि ७, ४०; ह ४.
प्र/णु(<नु)द्व.>णोदि, प्रणुदति मै
२, २; मैत्रि २, २; प्रणुदाम मना
२, ७९९^३; प्रणुदेत् मैत्रि ६, २८.
प्र-णोष क १, १, १८.
प्रणेत-प्र/णो द्र.
प्र/तन्, §^३प्रवनीपि मना १, ८; व
४६४=७; §^३प्रतनु मना २, ८;
व ४६४=६.
प्रतापन्ते छां ८, ६, २.^१
प्र-त(त>)ता-ताः महा १, १.
प्रलोपि मना २, १^१§^६; व ४६१=१६^१§^६.
प्र/तप्, >तापि, प्रवपन्ति गी ११,
३०.
प्रतापयेत् शि ७, ६९.
प्र-तप्-पन्तम् चा १७.
प्र-तस-सम् य ९; सु २९३=९.
प्र-ताप-पः २प्र ३६=१३; -पात्
सार २८०=१६.
प्रताप-कल्प-ल्पाः सार २२१=४
प्रताप-वत्-वान् गी १, १२.
प्रतापवती-ती मै ५, ५;

मैत्रि ६, ५.
प्रताप-शक्ति-क्या सार २४५:
१९; २०.
प्र-तापन-नाय शि ६, २१३.
प्रतरत्-प्र/तृ द्र
प्रतर्दन-प्र/तृ द्र.
१प्रति^१ छां १, ९, १; २, ९, १^१; १३, १;
३, १९, ३^१; वृ ५, १४, ५; त्रिमा
२, ७२; १संन्या २, ७०; अज
५, ७५; अक्षि ९; जाद १०, १;
सार २२१=१; २२६=७^१; २३८ः
५; २३९=२३; २४६=२१;
२५०=१५; २६१=२०; २६७ः
५; २६८=२^१; २८६=२०; शि
१, १८; गा १९; व ४६२=१८;
सांका ६३; योत् २, २२; प्रम्
४, २, २१; गी २, ४३.
२प्रति^१ छां २, ८, २.
प्रति-कत्^१-क्षम् सार २२७=१६.
प्रति-कपोल^१-लम् सार ३, १.
प्रति-कल^१-लम् सार २७५=१३.
प्रति-कुञ्ज^१-अम् सार २२७=१६;
२२९=८; २३६=७; २४८=२३.
प्रति-कूल^१-लम् व ४६२=७.
प्रति/कृ
प्रति-क्रिया-याम् गर्भ ४.
प्रति/क्रम, प्रतिचक्रमे छां ४, २, १;
३; कौ १, १^१; प्रतिचक्राम कौ
४, १८^१; प्रतिचक्रमिरे छां ५,
११, ७.
प्रति-क्रिय^१-यम् सांख ५, १२०.
प्रति/कुघ्र, प्रतिकुघ्रयेत् नाप ३, ४३.
प्रति/कल्प (<कृ>) कल्प, प्रति-
कल्पन्ते वृ ३, ३७^१.

a) °वध्वनिम् इति निसा., अथ्वा. संदि. । b) °वधा° इति निसा. । c) वा. क्रिवि. द्र. । d) तैश्चा १०, ६३, १ । e) मा १३, २१ । f) मा १३, २० । g) पा. १ 'प्रलुः, हि' इति पदद्वयपरः श्लोचः द्र. [तु. श्र. (८, ११, १०); वैतु. तैश्चा. (१०, १, १६) यनि. चिन्त्यस्वरः पा. १] (तु. वैप २, ६६३) तदुपरि भा. सा. च । h) स्वाश. वा कप्र वा । वैप १ यद्र. । i) पा. १ उत्तरेण स. सति शत° इति श्लोचः द्र. [तु. सस्थ. डि. योजना(न-अ)यत्->-तम् । j) 'प्रतिहार-^१ इत्यस्य पूर्वशः द्र. । k) अस. । l) 'प्रतिचक्राम' इति अथ्वा. । m) 'प्रतिचक्रमे' इति सांशा ६, १९ । n) सङ्घट्ट ष्वयन्ते इति निसा. ।

प्रति/मुद्, प्रतिमोदति मैत्रि ४, ६.
 प्रति/युज्, > योजि
 प्रति-योजिन्-
 प्रतियोगि-पुर-सर- रम्
 १ भव १०.
 प्रति-योज्य सार २५९: २२.
 प्रति/युध्, प्रतियोक्त्यामि गी २, ४.
 प्रति-योनि^० - नि वृ ४, ३, १५-१७;
 ३४; ३६.
 प्रति-रूप, पा- -प: क २, २, ९^१; १०^२;
 वृ २, १, ८^१; ५, १९; ४, १, ६; कौ
 ४, १०^२; वृजा २, १^१; अक्षि १;
 -पम् छां ८, ८, १; वृ २, १, ८; ३,
 ९, २२; सार २३९: ११; -पा
 कौ १, ३.
 प्रति/लिह् > लेहि, प्रतिलेहयन्ति वृ
 १, ५, ३.
 प्रति-लोम^० - मन् वृ २, १, १५; ६,
 ४, १२; -मेन यो २, १८.
 प्रतिलोम्य- -म्येन त्रिता २,
 ४७; ३, ६.
 प्रतिलोम-रूप- -पम् कौ ४, १८.
 प्रतिलोम(म-अ)नुलोम- -माभ्याम्
 मवा ६.
 प्रति-लो(म>)मा^१ - मा: वृ ६, ४,
 १२.
 प्रति/घच्, प्रत्युवाच छां ४, १-२,
 ३; अ १; राउ ३, १; महा २, १८;
 र्ह ३; अक्ष २; सार २४३:
 १५; प्रत्युवृ: द १५; प्रति-
 चकारिमि छां ५, ११, ७; प्रति-
 घक्षति छां २, २२, ३; प्रत्यबो-
 ष्य वृजा १, १.
 प्रत्यु(ति-उ)क्- -क्: प्रम् २,
 १, ३.

प्रति/चद्, प्रत्यवदत् क १, १, १५.
 प्रति/वह्(वहने)
 प्र(ति>)वी-वाह- -ह: २ प्र ३३:
 २१.
 प्रत्यु(ति-उ)ह् वृ ३, ९, २६.
 प्रत्यु(ति-ऊढ>)ढा- -ढा: छां ८,
 ३, २.
 प्रति-वाक्य^० - क्यम् नाप ३, ५१.
 प्रति-वान- -वे शि ७, १५.
 प्रति/विद्(ज्ञाने), प्रति...विदे कौ
 १, २.
 प्रति-वि/घा
 प्रतिवि-धि- -धि: मैष्ठ, ३; मैथिष्ठ, ३
 प्रतिवि-हि(त>)ता- -ता कौ ३, ५^१
 प्रति-विपया(य-अ)व्यचसाय- -य:
 सांका ५.
 प्रति/वृ(वरणे), प्रति...वृणीष्व क
 १, १, ९.
 प्रति-वृत्^० - क्षम् सार २३६: ७.
 प्रति-वेद्^० - दम् आध १; प्रम् ३, ३,
 ५५.
 प्रति-वेश्^० - वा: तै १, ४, ३.
 प्रति-शरीर^० - रम् भव २, ३१.
 प्रति-शरीर^१ - रेडु मै २, १०; मैत्रि
 २, ७.
 प्रति-शाख^० - खम् सार २८२: ७;
 २८६: १५.
 प्रति-शाखा-नाडी-सहस्र-
 -त्राणि प्र ३, ६.
 प्रति/थ्यु, > श्, प्रतिश्र्योति छां ७,
 १२, १.
 प्रतिश्रुधाव छां ४, ५, १; ६-८, ३;
 ९, १; १४, २; वृ ६, २, १.
 प्रति-श्रुत्-
 प्रतिश्रुत्-क, का- -क: वृ २, ५,

६; ३, ९, १३; -काया: (द्वयम्^०)
 कौ ४, ११.
 प्रति/पि(<सि)घ्, प्रतिपेधति प्रम्
 ३, २, २२.
 प्रतिपिष्यते गौ ३, २५^१.
 प्रति-पिद्- -द्धानि नाप ४, ७;
 १ संन्या २, ८९.
 प्रति-पेध- -धात् प्रम् ३, २, ३०;
 ४, २, १२; -घे सार २८८: १८.
 प्रतिपेध-नात्र-
 प्रतिपेधमात्र-स्व- -स्वात्
 प्रम् २, १, ७.
 प्रति/घ्रा(<स्था), > तिष्, घ्रापि,
 प्रतिघ्रति के ४, ९^१; तै १, ६,
 १; ३, ६-९, १; छां ४, १६, ५^१;
 वृ १, २, ३; ३, १७; ५, १७; ६, १,
 ३^१; अव्य ५; प्रति...तिघ्रति
 छां ५, १, ३; वृ १, ३, २७;
 प्रतिघ्रति शौ ५३: १२;
 प्रति...तिघ्रति मना २, २६^१;
 प्रतिघ्रति प्र २, ७; प्रतिघ्रि
 अक्ष ५^१.
 प्रतिघ्रास्यामि प्र ६, ३; प्रत्य-
 स्यात् नी १, २.
 प्रतिघ्रापयति अक्ष १०.
 प्रति-तिघ्र- -घ्रन्त्म् छां ४, १६, ५.
 प्रति-घ्र- -घ्र: वृ ६, १, १४.
 प्रति-घ्रा- -घ्रा के ४, ८; तै २, १-५,
 १; ३, १०-३; ऐ १, २; ५, ३; छां
 ५, १, ३; १३^१; १७, १; ७, ५, २;
 वृ १, १, १; ३, २७; ४, १, २-७;
 ५, ५, ३; ४; ६, १, ३; १४; मना
 २, ७९^१; मै ४, ५; वृजा १,
 १; २, १^१; आबो १; नाप ५,
 ३; १ भव ४; दे २२; अक्ष १;

१) पा ३, २, १४२ । २) अक्ष । ३) अयत् (वैदु. पाणिना. (५, ४, ७५) प्रास. इति । ४) वस । ५) वैप१ यद । ६) कस । ७) निसा. मुपा. [तु. आन.; वैदु. शांभा. (६, १२) छायायाम् (तु. वैप२ यरपा.) यनि. शोषः द. (तु. अन्त्या.)] । ८) तैषा १०, ११, १ । ९) विप. (तु. पा ३, १, १३६; वैदु. शां. प्रत्य. लप्^० इति स. इति!) । १०) तैषा १०, ६३, १^१ । ११) वैदु. उम. यत्-प्र^० इति वस. इति १ । सरप. 'तेजः' इत्यपि घृष्यत् पदमिति इत्या गप्. (४१६२) तैषोपिघ्राकला-
 श्यय शोषः द. । उभयत्राऽनुवापविधेयप्रकारकृतमामान्यात् ।

प्रति-वादिह, वा- -तम् मुह २; ह
१३; -ता भा ४३.^१
प्रति-पाद्यमान- -नः सार २२९: १०
प्रति-पद्^b- -देन आये ९: ११.
प्रातिपदिक^c- -कम् २२ ३४: ५;
३५: ७.
प्रति/पश्, प्रतिपश्य क १, १, ६.
*प्रति-पाल^d-
✓प्रतिपालि
*प्रतिपालया-
*प्रतिपालयां/ह, प्रति-
पालयांचकार छां १, १२, ३.
प्रति/पिप्, प्रतिपेक्षयति छां २, २२, ४
प्रति-पुरुष- -पः मे २, ५^१; मैत्रि २,
५; ५, २.
प्रतिपुरुष-विमोक्षा(ञ-ञ)थै-
-थैम् सांका ५६.
प्रति/पूज> पूजि, प्रतिपूजयेत् शि ६,
१४१; ७, ४१.
प्रति/पू> पूर
प्रति-पूर्ण- -र्णः छां ४, १०, ३.
१प्रतिप्रति^e- -तिः वृ १, ३, १८^f.
२प्रति-प्रति^g
प्रतिप्रति-गुणा(ष-ञा)धय-वि-
-क्षेप- -पात् सांका १६.
प्रति-प्र/सू(प्रसवे)
प्रतिप्र-सव- -वः योस् ४, ३३.
प्रतिप्रसव-क्षेप- -याः योस् २, १०.
प्रति-प्रस्थाव^h- -ता प्रा ३, १; ४, १.
प्रति/यन्च्, प्रतिब्रजति वि १३.
प्रति-यद्-
प्रतिवद्-ज्ञान- -नम् सांस् १,
१००.
प्रति-यन्ध-
प्रतिवन्ध-दश- -दशः सांस् १,

१००.
प्रति-विम्बⁱ- -व्यम् ते ६, १८; -व्याः
त्रिविध, १४; -व्येन अक्ष ५, १८.
✓प्रतिविम्ब, प्रतिविम्बन्ति महा
५, ५५; अक्ष ४, ७१.
प्रतिविम्बित- -तम् त्रिवि ४,
१४; सार २८४: १३; -ताः
सार २२५: ३; २६५: २३.
प्रतिविम्बित-शाखा(खा-ञ)-
प्र-फला(ल-ञा)स्वादन-मोद-
प्रतिविम्बितशाखाप्रफ-
लास्वादनमोद-वल् मैत्रे २, २२.
प्रतिविम्ब-गत- -तैः अक्ष ५, ९९.
प्रतिविम्ब-भावा(व-ञा)प(ञ>)-
ञा- -भाः सार २७१: २१.
प्रतिविम्ब-वल् सर ३, १२.
प्रतिविम्ब-सम-सुति- -तिः वृजा
६, ८.
प्रति/वुष्, > बोधि, प्रतिबुध्यते कौ
३, ३^१; ४, १९; वृत् ७, ११; नाप
३, ४१; योशि ६, २४; प्रत्यबुध्यत
वृ १, ४, १०.
प्रति-बुद्- -द्दः वृ ४, ४, १३; गौ
२, २; ४, ३४; ३५; ३९; अ २^१;
त्रिता ५, १.
प्रति-बोध-
प्रतिबोध-विदित- -तम् के २, ४.
प्रति-बोधन- -नाय मे २, ६; मैत्रि
२, ६.
प्रति-बोधित- -तः ते ५, ६२.
प्रति/वृ, प्रतिव्राजि कौ १, १; प्रत्य-
प्रवीत् छां ४, ४, ४; प्रतिव्रयात्
कौ १, २; ५.
प्रति/भा, प्रतिभाति क १, ३, ६;
प्रतिभान्ति छां ६, ७, २; प्रति-

भान्तितराम् सार २८२: २.
प्रति-भा-
प्रतिभ^l- -भात् योस् ३, ३४.
प्रातिभ-धावण-वेदना-
(न-ञा)दर्शा(र्श-ञा)स्वाद्-
पात्ता- -र्ताः योस् ३, ३७.
प्रति-भान- -नम् महा ४, ५१^१.
प्रतिभान-नाश- -शः वर २,
६९.
प्रतिभान-युक्त- -कम् वरा ३, ४.
प्रति/भास्, प्रतिभासते महा ५,
१०८; अक्ष ४, ५५; १आ १-३.
प्रति-भास्- -भासम् अक्ष ३, १५.
प्रति-भास-
प्रातिभासिक- -कः पै २, २८.
प्रति-भासित- -तम् अद्वै ९.
प्रति-मणि^m- -णि सार २३७: १३.
प्रति/मन्
प्रति-मन्वान- -नः छां ४, १, ७.
प्रति/मा(माने)
प्रति-माⁿ- -मा श्रेष्ठ, १९९^१; -माः
जाद ४, ५९; -माभिः गुद २^१;
-माम् गौड ३२; शि ६, १४४;
१४७; -मासु जाद ४, ५९.
प्रतिमा-लिङ्ग-वेदी- -दीषु शि
३, १४.
प्रतिमा-संनिधि- -धौ ग १८.
प्रति-मान- -नानि मना १, ९९^१.
प्रति-मात्रा- -त्राः वृत् २, ८; ३, ६.
प्रतिमात्रा-नात(>)त्रा- -ताः अ ३.
प्रति/मुच्, > च्च्, प्रतिमुञ्चस्व अर्ध
१०९^m; प्रतिमुञ्च नाप ४, ३८ⁿ;
अ २; प्रत्यमुञ्चत् अन्वय ६.
प्रतिमुञ्च्यते मे ४, ४, १०; मना
२, ३४^१.

a) ताः इति तान्त्रि. । b) अस्. । c) वृ. वैप १, २०५a । d) *पूर्यम् इति निसा. यनि. शोधः द.
(वृ. मैत्रि २, ५) । e) व्यु. १ पाप. प्रति/प्र+कर्त्तरि कचित् प्र. उस्. (पा ३, १, १३३) । f) वृ. वैप २ वर्याः; वैतु.
शं. 'प्रति प्रति' इति, रामा. 'प्रति प्रति' इति पदद्वयमिति ? । g) वीप्सायां द्विवचनम् (पा ८, १, ४) । h) *बुध्यः इति
निसा. । i) यदर्थम् इति अख्या. । j) मा ३२, ३ । k) 'प्रतिमा' इति मा ३२, ३ । l) अर्ध १०, ८९, ५ ।
m) तैआ १, २७, १ । n) पाप २, ३, १० । o) तैआआ १०, ३४^१ ।

प्रती(ति-इ)व- -त्तः क १, १, १०;
 ११; योशि १, १२४; -त्तम् पाशु
 २, ४६; वरा २, २७.
 प्रती(ति-इ)वि- -तिः योशि १,
 १३२; अज ५, २२; २अव
 ३३७: ६; सांका ६; -त्तः वसू
 ३, १, ६.
 प्रतीति-जनक-
 प्रतीतिजनक-रय- -स्वार
 सांस् ५, ४४.
 प्रतीत्य(ति-अ)प्रतीति-
 -तिभ्याम् सांस् ५, ५७.
 प्रती(ति-इ)त्य वृ ६, २, ४.
 प्रती(ति-ई)यमान- -नःससा १, २३.
 प्रत्य(ति-अ)य- -यः महा ५, १२;
 १३; १आ२८; सर ३, ८; २प्र ३४:
 ६; सार २२७: १२; २५०: १;
 २८८: १६; -यम् मैत्रि ६, १०;
 महा २, १०; -यस्य २प्र ३५:
 ७; योसू ३, १९; -याः योशि ६,
 ६४?; ६५; -येन वरा ४, ९०.
 प्रत्यय-कारिन्- -रिणः सार
 २८८: १९.
 प्रत्यय-बोधक- -कः पाशु २, ३.
 प्रत्यय-रस-वीरुन्-सुख-दातृ-
 गुण-नाण-योग्य- -न्याभ्याम्
 सार २४८: ६.
 प्रत्यय-सर्ग- -र्गः सांका ४६.
 प्रत्ययां(य-अ)श- -शाम् सौ२, ३.
 प्रत्यया(य-अ)नन्द-निश्चय-
 -यः महा ६, १७.
 प्रत्यया(य-अ)नुपइय- -इयः
 योसू २, २०.
 प्रत्यया(य-अ)न्तर- -राणि योसू
 ४, २६.

प्रत्यया(य-अ)पक्ष- -क्षाः सार
 २४०: २०.
 प्रत्यया(य-अ)भाव- -वम् महा
 २, १०.
 प्रत्यया(य-अ)र्थ- -र्थम् रापू ४,
 २१.
 प्रत्यया(य-अ)विशेष- -याव
 योसू ३, ३६.
 प्रत्ययै(य-ए)कतानता- -ता योसू
 ३, २.

२प्रती(ति-ई)
 प्रती(ति-ई)य अ २?°
 प्रतीक'- -कम् वृ १, ५, २; -कानि वृ ६,
 २, ३; -के वसू ४, १, ४; -केन
 वृ १, ५, १; २.
 प्रती(ति-ई)वृ, प्रतीक्षते भव १, ३८;
 प्रतीक्षेत नाप ३, ६१; ५, १.
 प्रती(ति-ई)क्षव- -क्षन् शि ७, ३५.
 प्रती(ति-ई)च्छ, इष(इच्छायाम्),
 प्रतीच्छथ ह्याग २४: ११.
 प्रती(ति-ई)रु-ईरि, प्रत्यैरयत्तम् वृ
 २, ५, १७५.
 प्रती-वाह- प्रति/वह(वहने) प्र.
 प्रती(ति-ई)पू(पती)
 १°प्रती(ति-इ)व्य>व्या वृ १, १;
 वृजा १, १.
 प्रती-हार- प्रति/ह प्र.
 प्र/तुद्
 प्र-तोद्- -दः मै २, ९!; मैत्रि
 २, ६; ह्याग २५: १२; २१.
 प्र/तुप
 प्र-तुद्वा^१ श १४.
 प्र/तुद्
 प्र-तर्दन- -न कौ ३, १; -नः कौ
 ३, १.

प्रातर्दन- -नम् कौ २, ५.
 प्र-तुद्-
 प्रातर्द- -दः वृ ५, १२, १.
 प्र/तु>तर, प्रतरेत ये २, ८; भव ३,
 २५.
 प्र-तरत्- -रत् पा १, ६; २, ५; ८, ८.
 प्रत्न- -नस्य छां ३, १७, ७५.
 प्रत्य(ति-अ)क्ष- -क्षः अज २, २०;
 -क्षम् तै शां; छां ५, २, १; प्रवि
 ३४; अक्षध; सू ९; १०; ११;
 ग २; ५; शौ ५३; १९; व ४३८:
 १३; २३; ४३९: १०; २०;
 ४४०: ७; १७; ४४१: ५; १५;
 ४४२: ३; १४; ४४३: १; १२;
 ४४९: १६; २३; ४५०: ७; १४;
 २१; ४५१: ७; १४; २१; ४५२:
 ६; १४; २१; १कौल शां; सांस्
 १, ८५; ५, १००; -क्षस्य १प्र
 ३१: ४; -क्षेण त्रिवि २, १.
 प्रत्यक्ष-स्व-
 प्रत्यक्षस्व-नियम- -मः सांस् ५,
 ८९.
 प्रत्यक्ष-दर्शन- -नम् सी २६.
 प्रत्यक्ष-दैवत- -तम् सूता १, २५;
 ६, १३.
 प्रत्यक्ष-द्विपू- -द्विपू: वृ ४, २, २.
 प्रत्यक्ष-वाध- -धाव सांस् ५, ६२.
 प्रत्यक्ष-भाव- -वम् सार २७६: ७.
 प्रत्यक्ष-यजन- -नम् प्रवि १३; ५७.
 प्रत्यक्ष-रक्षा- -क्षा व ४३४: १५°.
 प्रत्यक्षा(च-अ)नुमान- -नाभ्याम्
 वसू १, ३, २८; ३, २, २४; -ने
 वसू ४, ४, २०.
 प्रत्यक्षा(च-अ)नुमाना(न-अ)-
 गम- -माः योसू १, ७.

a) प्रतीतिमन्त्र° इति श्रवणा । b) °वद° इति श्रवणा । यनि.शोषः प्र. । c) 'प्रयत्नेन' इति श्रवणा । d) °यः इत्यपि प्राप्ते । e) पा.ः 'प्रतीयाव' इति निप्ता, 'प्रतीयाम्' इति श्रवणा, 'प्रतीधोम्' इति श्रवणा. संटि. च यनि. स्वयन्तः शोषः प्र. (तु. सहचरितं निरवा इति) । f) वैप १ यद. । g) श्र १, ११७, २२ । h) श्र १०, १२९, ५ । i) 'प्रतो- दनेन' इति पा.ः 'प्रतोदः अनेन' इति पदद्वयपरः शोषः प्र. (तु. मैत्रि २, ६) । j) पा ७, १, ३८ । k) °दः इति निप्ता । l) श्र ८, ६, ३० । m) विप. नाप., क्रिवि. च वृत्वा धूयमाणं यस्या. प्र. । व्या.स्यु. च वैप १ यद. । n) तु. सत्य. टि. भागमरक्षा- ।

अञ्ज ४,२७; कर् १,८; व ७; इ
११; ६; १७; माए; शौ ५३: ११;
१२; कथु २,२; गी १४, २७;
-घा: मुं ३, २, ७; घाम् १, १, १४;
२, ११; तै २, ७, १; छां १, ८, ७;
५, १, ३; वृ १, ३, २, ७; ४, १, २-७;
६, १, ३; ४, २; शौ ५३: १०; वड
६, ४८; छाये छां ५, २, ५; वृ ६,
३, २; का १०; -वृ ५, ५, ३; ४.
प्रतिघा-भू- -भुव: वा ९.
प्रतिघा(घा-अ)र्थ- -र्थम् मैत्रे २,
२०.
प्रतिघा-वत्- -वात् तै ३, १०, ३.
प्रतिघा-संस्वाव- -वम् छां १,
८, ७.
प्रति-घान- -नात् योशि १, ११५.
प्रति-घापित- -तम् मै २, ३; ४; ५;
९; मैत्रि २, ३; ४; ५; ६.
प्रति-घाप्य मैत्रि ६, २१; वृत्वा ३,
११; म १, ३; गी ६, ११.
प्रति-घित, वा- -त: मुं २, २, ७; तै
३, ७, १; ९, १; छां ५, १७, १; ७,
४-५, ३; २४, १; २; वृ १, ३, ३; ३,
२७; ३, ९, २०; २१; २२-२४;
२६; ४, ४, १७; ५, ५, २;
मैत्रि ६, ३४; वा २; मना २,
१२, २९; योशि ५, २९; अव्य
६; अना ३३; शु ३, १८; राड
३, १; प्रा २, १; नाड १, ५; ९;
-तम् प्र १, १५; २, ६; १३; तै ३,
७-८, १; ९, १; ऐ शां ९;
५, ३; छां ३, १२, २; वृ १, ५, १;
२; ३, ९, २०; २२; २३; ७४;
५, १४, ४; कै १, १९; मना १, ८; ९;
९; २, १३, २९; २, ७९;
कौ नाद निर्वा अच्च त्रि सी सर व

शां ९; शां १, ७, ४१; योशि १,
१७५; ३, २२; ५, १२; ६, १०;
१३; अव्य २; प्या ३०; ४७;
९३, १; आयो शां ९; १; योच्
१०; रा ५, ९; मुद्र शां ९; ३;
म २, ११; २६; गोड ४३; वरा
५, २२; य ७९; गोच ६५; ४;
नाड १, २८; शु २९३: ७; शि
५, ४७; ७, ३१; गा ११; १३;
गी ३, १-५; -ता प्र २, १२; तै
३, ६, १; ९, १; ऐ शां ९; वृ ३,
९, २१; २३; २४; ५, १४, ४;
मैत्रि ७, ११; कौ नाद आयो
निर्वा मुद्र अच्च त्रि सी सर व
शां ९; शां १, ४; योशि १, १६९;
५, ६; २०; वरा ५, ५१; गा ११;
१४; गी २, ५७; ५८; ६१; ६८;
-ता: प्र ६, ६; तै ३, ८, १; ऐ २,
१; छां ३, १२, ३; ४; वृ ३, ९,
२२; ४, २, ३; म २; अशि ३, ९; वृ ५
५, २; नाद ८; सुवा ४; योच् ५६;
अव्य २; वड ३१५: ८; १रिसं
५; २रिसं ६; -तात् छां ७,
४, ३; ५, ३; सुवा १०; -तानाम्
(?ताम्) इ १८: ६; -तानि छां ७,
४, २; ५, २; वृ ३, ९, २०; ४, १,
७; -त्वे प्र ६, ३; जाद ४, ५७; -तौ वृ
३, ९, २६; ५, ५, २; वरा २, ५०.
प्रतिष्ठित-चित्त- -ता: सार
२७४: २.
प्रति-ष्ठित- -स्य मना २, २६९.
प्रति-सं/युज्
प्रतिसं-योध्यमाण- -ण: सार
२७८: १८.
प्रति-संख्या-
प्रतिसंख्या(ख्या-अ)प्रतिसंख्या-

निरोधा(ध-अ)प्रति- -सि:
प्रसू २, २, २२.
प्रतिसंददत् शौ ५२: १६.
प्रति-सं/दिग्, प्रतिसंदिदेश शौ
५१: ६; ५३: ३.
प्रति/सृ
प्रति-सर-
प्रतिसर-योग्य-
प्रतिसरयोग्य-व- -खाद्
पम २.
प्रति-सृवर- -रेण छाग २४: २३.
प्रति/सृप्
प्रति-सृप्य छां ५, २, ६.
प्रति-स्थान- -नम् वृत्वा ४, १९.
प्रति/हन्
प्रति-हत् -ता: व ४५६: १६.
प्रति/ह्, प्रतिहरति सार २८५: ९.
प्रतिहरिष्यसि छां १, १०, ११;
११, ८; प्रत्यहरिष्य: छां १, ११, ९.
प्रति-हरमाण- -यानि छां १, ११, ९.
प्रति-हर्तु- -त: छां १, १०, ११;
११, ८; -तां छां १, ११, ८;
-तारम् छां १, १०, ११.
प्रति-हार- -र: छां २, २, १; २;
३-७, १; ८, २; ९, ६; १०, २;
११-२१, १; -नम् छां १, १०,
११; ११, ८; ९.
प्रतिहार-भाजिन्- -जिन: छां
२, ९, ६.
प्रति-हत् -ता: छां २, ९, ६.
प्रति(>)वी-हार-
प्रतीहार-समोषे(त>)वा-
-ताम् शि ६, १२२.
१प्रती(ति/ह्), प्रत्येति य ६.
प्रतीयते आबो ११; २५; त्रिवि
१, १; प्रतीयन्ते गार ४०७: २२.

a) वृ. वे.; वैत. बाटो. पदद्वयमिति । b) °ना इति अच्चा । c) तैश्चा १०, १०, ३ । d) ऐसा २, ७, १ । e) तैश्चा १०, १, ८ । f) °ते इति तैश्चा १०, १, ९ । g) तैश्चा १०, ११, २ । h) तैश्चा १०, ६३, १८ । i) मा ३४, ५ । j) पा. ३ यनि. शोध: द्र. । k) तैश्चा १०, १९, १ । l) पा. १ प्रतिसं/दिग्>प्रतिसंदिदेश इति शोध: द्र. (घ. नाड.) । m) प्रसू° इति अच्चा. संति. । n) पा ३, २, १६३ । o) अस. । p) =अश्लिष्-विशेष- ।

प्रत्या(ति-आ)/ख्या
 प्रत्या-ख्यातुम् वृ ६,२,८.
 प्रत्या(ति-आ)/चक्ष्,प्रत्याचक्षीत तै
 ३, १०, १; प्रत्याचक्षीन् कौ२,
 १; २.
 प्रत्या(ति-आ)/जन्>जा, प्रत्याजा-
 यते कौ १,२.
 प्रत्या(ति-आ)/धा
 प्रत्या-धान- -नम् वृ २,२,१.
 प्रत्या(ति-आ)/पद्
 प्रत्या-पत्ति- -त्तिम् शा २७.
 प्रत्या-पद्यमान(न>)ना- -ना सार
 २८५:५.
 प्रत्या(ति-आ)/प्यै>प्यायि, प्रत्या-
 प्याययेत् २३ ३३: १२:१३.
 प्रत्या(ति-आ)/या, प्रत्याययु: वपु
 १, ४.
 प्रत्या(ति-आ)/धि, प्रत्याधायते गार
 ४०५: २१.
 प्रत्या(ति-आ)/धु>ध्रावि
 प्रत्या-ध्रावित- -तम् वृ ६,३,४.
 प्रत्या(ति-आ)/स्वृ
 प्रत्या-स्वर- -र: छां १,१,२.
 प्रत्या(ति-आ)ह्,प्रत्याह छां ७,१५,
 २; वृ १,५,१७; मैत्रि ६, ३१;
 कौ १,२१.
 प्रत्या(ति-आ)/ह्,प्रत्याहरेत् योच्
 १२१; शां १, ८.
 प्रत्या-हरण- -णम् १योट ६८;
 योच् १२०.
 प्रत्या-हर्ति^१ -र: मैत्रि ६, १८;
 अना ५; ६; ते १, १६; ३४;
 ध्या ४१; १योट २५; ६९;
 २अव ३३७: ७; वित्रा २,
 ३०; १३०; योच् २; १११;

१२०; सं १, १, ७; शां १, ८;
 जाद १, ५; ७, २-५; ९; १४;
 वरा ५, ११; शि १, २७; योस्
 २, ५४; -रम् जाद ७, १;
 -ना: शां १, १^१; -रेण अना ८;
 योच् १०९.
 प्रत्याहार-दि-पद्क- -दकेन
 योच् १११.
 प्रत्याहार-परायण- -ण: भव ३,
 २७.
 प्रत्याहार-स्मर- -रै: जाद७, ९^६.
 प्रत्या-हृत- -तम् अक्ष ३, ५.
 प्रत्या-हृति^१-
 प्रत्याहृति-वदा- -दात् अक्ष ५,
 ९०.
 प्रत्युक्त- प्रति/वच् द.
 प्रत्यु(ति-उ)त्तर- -रम् सार २७६:९.
 प्रत्युत्था(ति-उद्/स्था)
 प्रत्युत्-थान^१- -नम् नाप १.
 प्रत्युत्-थाविन्^१- -वित: वृ६, २, १६.
 प्रत्यु(ति-उ)प/कृ
 प्रत्युप-कार-
 प्रत्युपकारा(र-आ)र्थ- -र्थम् गी
 १७, २१.
 प्रत्यु(ति-उ)पभोग- -णम् सांका ३७.
 प्रत्युहा, प्रत्युदा- प्रति/वह् (वहवे) द.
 प्रत्युप^१- -प: वृजा ४, १६.
 प्रत्यु(ति-उ)ह्(पापयो), प्रयोहव वृ१,
 २, ७; प्रयोहवाम् मना२, ४८^१.
 प्रत्युति-काञ्च वृउ ७, १२.
 प्रत्ये(ति-आ)/ह्, प्रत्यावन्ति वृ ५, ५,
 २; कठ १; कथु २, २.
 प्रत्येपाय छां ४, १, ७; ८; २, ७.
 प्रत्या(त्या-अ)यन- -नम् छां ३,
 १९, ३.

प्रत्ये(ति-ए)क^१- -कम् १योट २८; भा
 ३२; यो १, ५४; शि ४, २२; ६,
 १७; २११; सांस् २, ४; वस् ३,
 २, १२.
 प्रत्येक-परिष्ट- -ष्टे सांस् ३, २२.
 प्रत्येका(क-अ)दधि- -ष्टे: सांस् ३,
 २०.
 प्रत्येका(क-अ)न्-उपलब्धि- -ब्धि:
 सांस् ५, १३०.
 प्रत्ये(ति-ए)नस्^१- -नस: वृ४, १, ३७;
 ३८.
 √प्रथ् प्रथते मि ५^६.
 प्रथित,ता- -त: गी १५, १८; -ता
 योधि ३, ५.
 प्रथम,मा^१- -मा: के १, १; ४, २; ३; क
 १, १, ५; सुं १, १, १; मां ३; छां
 २, २३, १; हं १६; वृपु २, २; ३;
 ४, ४; वृउ १, ६; ३, १; २; वस्
 ५; नाप ८, ९; त्रिभि १, ९; योच्
 ७२; राउ ३, १; महा ६, ५९;
 योशि १, १०३; यावि १०; यो
 १, ४, १; जाद ६, ४३; तु ७^१;
 नाप ५, ५; गार ४०६: ४; ८;
 पो ७; वपु १, ७^१; वउ १, ६; -नम्
 क १, १, १०; ऐ ४, १; छां ३, ६,
 १; ५, १९, १; वृ ५, १४, ६; धे
 २, १९^१; मना १, १०९^१; २, १२,
 ३९^१; अशि १, २; वृजा१, १९^१;
 ३, ३४; वृपु १, १९^१; ३; ८; २, ४;
 ६; नाद ३८; ध्या ४३; १योट
 ४८; नाप४, १८; ६, १; योच् ६;
 शां १, ७, ५; महा ५, १०; १६०;
 २संन्या १६: ५९^१; त्रिता२, ६; ४८;
 यो १, ५८; शा ३०; दशा १, ३;
 ५; ६; योरा ५; आव ६; शी ५, १;

a) १हारः इति अख्या. संदि. । b) १परैः इति अख्या. । c) पा ८, ४, ९५ । d) व्यु. १ = वृषुविशेष- ।
 e) वैसं ४, १, ७, ४ । f) अस् । g) वस । h) अत्र प्र० इति पा. [तु. सत्य. टि. मद्दान>)नी-> न्या; वैट.
 तान्त्रि प्रथे० इति २यं पदमिति, निसा. मन्त्रिव-> म्नी इति १मं पदमिति, अख्या. मन्त्र-प्रवत-> न्ते (तु. उव.)
 इति समस्तमेकपदमिति ?] । i) वैप१ यद्र. । j) वा. पुं. १ स्त्रीत्वपरः शोचः द्र. । k) मा ११, १ । l) मा १३, २ ।
 m) तैश्चा १०, १०, ३ । n) अ १०, १२९, ४ ।

प्र-दाह- -तारम् शि ६, २८१.

प्र-दान- -नम् शां २, १; -नस्य शि ६, ७०.

प्रदान-वत् वस् ३, ३, ४३.

प्र-दाय वृ ६, ४, २७; गोच ६९: ७.

प्र-द्वेष, या- -यम् सूता ६, ६; शि ७, ७९; -या: शि ६, ७५.

प्र/दिश

प्र-दिष्ट- -ष्टम् गी ८, २८.

प्र-देशि(न>)नी^१- -न्या प्रा १, ६.

प्रदेशिनी-मूल- -ले शि ५, ४६.

प्र-दिश^२- -दिश: श्वे २, १६९^३; मना १, ३९^४; ४९^५; अशि ५, १९^६; मवा ९९^७; वा १७; सूता १, १०९^८; वृ ३१६: २०९^९; २शिंसं ९.

प्र/दीप्

प्र-दीप- -पम् शि ७, ७१.

प्रदीप-कल्प- -ल्पा: सांका ३६.

प्रदीप-प्रताप-

प्रदीपप्रताप-वत् मैत्रि ६, ३८.

प्रदीप-वत् अ २: कुं २३; सांका १३; वस् ४, ४, १५.

प्र-दीपन- -नम् योचू ९९; शां १, ७, ८.

प्र-दीप्त- -प्तम् गी ११, २९.

प्र-दीप्यमान(न>)ना- -ना: सार २३७: ४.

प्र/दुष्, प्रदुष्यन्ति गी १, ४१.

प्र/दुष्, प्रदुष्ये मना १, २९^१.

प्र/दुष्, प्रदुष्यन्ते, प्रदुष्येत छां ५, २४, ३.

प्र/दृष्टा, > दृष्टि, प्रदृश्यते रुजा १, १४; शि ७, ६५.

प्र-दृशित, ता- -त: नाद ५; -ता सुद १, ५.

प्र-देश- -शाव वस् २, ३, ५३; -से गी ४, ३३; सी २, २.

प्र/देश^१-

प्रदेश-मात्र- -त्रम् छां ५, १८, १.

प्र/द्युत्, प्रद्योतते वृ ४, ४, २.

प्र-द्योत- -तेन वृ ४, ४, २.

प्र-द्योतमा(न>)ना- -ना सार २६९: २२.

प्र-द्योति(त>)ता^२- -ता सार २५३: १०.

प्रद्युक्ष^३- -क्ष: गोट ३५; ४२; -क्षम्

त्रिवा २, १४४; -क्षस्य गोट २५;

-क्षाय शु २, ५; त्रिवि ७, ४१.

प्रद्युक्ष-मूर्ति- -र्ति: गोट २५.

प्रद्युक्ष-सं(सा>)क्ष- -क्षम् सं ३.

प्र/द्रा

प्र-द्राण-

प्रद्राण-क- -क: छां १, १०, १.

प्र/द्रु, प्रदुदाव वृ ६, २, ३.

प्र/द्विप्

प्र-द्विपत्- -पन्त: गी १६, १८.

प्र/धा

प्र-धान, ना^४- -न अक्ष ५; -न: मैत्रि

६, १०; वस् ३; पा १, ६; २, १;

-नम् श्वे १, १०; नाप ९, ९; शारी

९; त्रिवा २, ७८; १छौत ३: ४;

भव २, १३; १४; ६८; सांस् २,

४०; ३, ७३; सांका ११; वज ३,

५९; ४, ९; -नस्य मैत्रि ६, १०^५;

सांस् २, १; ३, ५९; ६३; ७०; ६,

३८; ४०; ४३; सांका २१; ५७;

वस् ३, ३, ११; -ना: ध्या ५२;

योचू १६; २४; पा १, १०.

प्राधान्य- -न्यम् सांस् २,

४७; -न्येन त्रिवि २, १०.

प्राधान्य-तस (>) गी

१०, १९.

प्रधान-कार्य-

प्रधानकार्य-त्व- -त्वस्य

सांस् ५, १२.

प्रधान-क्षेत्रज्ञ-पति- -ति: श्वे ६, १६; भव २, ४७.

प्रधान-चेष्टा- -ष्टा सांस् ३, ५१.

प्रधान-ज- -जै: श्वे ६, १०; भव २, ४८.

प्रधान-जप- -प: योचू ३, ४९.

१प्रधान-पुरुष^६- -प: पै १, १५.

२प्रधान-पुरुष^७-

प्रधानपुरुष(प-अ)न्तर-

-रम् सांका ३७.

प्रधान-बाधक-

प्रधानबाधक-त्व- -त्वम्

सांस् ५, ११९.

प्रधान-विनिवृत्ति- -त्ते: सांका ६८.

प्रधान-व्यपदेश- -शाव सांस्

१, १२५.

प्रधान-शक्ति-योग- -गाव सांस्

५, ८.

प्रधान-संवत्सर- -रा: महा १, १.

प्रधान-सृष्टि- -ष्टि: सांस् ३, ५८.

प्रधाना((न-अ)प्रमन्- -रमा गोट

६४^८.

प्रधाना(न-अ)नुवृत्ति- -त्ति:

सांस् ६, ३५.

प्रधाना(न-अ)न्त- -न्त: -स्थ:

मैत्रि ६, १०.

प्रधाना(न-अ)विवेक- -काव

सांस् १, ५७.

प्र-धि- -धय: छाग २५: २०; -धि:

वृ १, ५, १५; -धिना वृ १, ५,

१५; वा १६.

प्र/धाव्(गती), प्रधावति ध्या ७९;

योचू ५१; योशि ५, ४१; ६, ३५;

यो १, ६२; प्रधावन्ति त्रिवि ४,

१४; राव ५, १०.

प्र/घृ> घारि, प्रघारयेव वृजा ३, ३३;

४, १.

a) वैप १ यद. b) मा ३२, ४. c) मा ३२, ११. d) तैत्ति ३, १२, ७. e) तैत्ति १०, १२. f) पा १, २, २१. g) व्यु. = वायुदेवपुत्र. h) विप. वा नाप. वा. i) कस. j) दस. k) 'मियाव् आमा' इति आन. l

११; सूता १,३०; ऊ ६४ : ६;
 नापू ६,२; घृष ८४ : ३,६; १०;
 ८५:६; सार २४१ : ५; २६२;
 १; २६४ : १९; लि ३११ : २;
 २विशं. ३२९^०; काम २; १३;
 कालि ४०३ : १४; गार ४०७;
 ५; १०; गा १२९; गु ७९; विद्या
 १; तारा ८३ : २; चू ७; वपू १,
 १; ६; २, १; २; -मया सुद १,२;
 २प्र ३२-१०; -मस्य वृपू १,९;
 ११; त्रिता २,४; १०; १७; वृष
 ८४:१५; १९; ८५:१२; -मा प्र २,
 ८; मां ९; मैत्रि ६, ३३; अशि
 ५,९; अ१; वृजा ७,७; वृपू १,२;
 नाद ६; ९; काला १२; नाप ८,
 १; सी ६; रार ३, १^०; महा ५,
 १४; अल ५, ८१; अक्षि २७;
 त्रिता ३,५; त्रि ३; वरा ४, १^०;
 जावा २१; सौ १, ३; २प्र ३४:
 १९; सार २२० : ५; ६; गार
 ४०६ : ६; व ४६०:१२९^०; वरू
 १,४; -मानि मवा १०९^०; -माम
 छां ५, १९, १; वृ १, ३, १२; ये
 २, १३; अक्षि ९; -मायाम् नाद
 १२; -मे हं १८; मना १, १५९^०;
 ध्या १०; १थोत १२४; अक्ष ५;
 यो १, ५४; म ४८ : ७; सि ६,
 १३९; मसू ३, १, ५; -मेन वृपू
 २, ४; पि ७; २प्र ३२:८; कालि
 ४०१ : १२; वपू २, ३; -मी भव
 ३, २९; -मौ महा ५, ९५.
 प्रायमिक-कः अक्ष १, १३.
 प्रथम-भू(ट>)या-टाम् विद्या १.
 प्रथम-भूटा(ट-अ)क्षर-रः
 विद्या १.
 प्रथम-चक्रे(क-ई)धरी-री आष
 ३९, ४ : २०.

प्रथम-ज-जम् वृ ५, ४, १^०; -जाः
 योचू ७२; -जान् शौ ५१ : ११.
 प्रथम-जन्मन्-न्मानः महा ५,
 १३७.
 प्रथम-जा-जाः तै ३, १०, ६९^०;
 मना १, ४९^०; वृपू २, १८९^०.
 प्रथम-द्वितीय-तृतीय-भूमिका-
 -काः वरा ४, १.
 प्रथम-वद-दात् गोपू २९.
 प्रथम-परिणाह-हे सार २८१:३.
 प्रथम-पाद-दात् अव्य ६; गोपू
 ३०^०; -दे त्रिवि १, ९.
 प्रथम-भू-पुर-वीधि-ध्याम्
 त्रिवि ७, ४८.
 प्रथम-भूमिका-का वरा ५, ७४^०.
 प्रथम-मन्त्रो(न्त्र-उ)क-कौ राउ
 ४, २; ता ३, ८.
 प्रथम-याम-मे रा ४२५ : ५.
 प्रथम-रूप-पः नापू १, ४.
 प्रथम-रेखा-खा ध्या ९३, १२^०.
 प्रथमरेखा-वलय-यम् ध्या
 ९३, १२.
 प्रथम-शेणि-ण्याम् सार २७०:५.
 प्रथम-सङ्ग-रजिता(त-आ)मन्-
 -रमने सार २५१ : १९.
 प्रथमा(म-अ)क्षर-रः राउ १, ३;
 ता २, १.
 प्रथमा(म-अ)न्ता(न्त-अ)र्ध-धंस्य
 वृपू १, १३.
 प्रथमा(म-अ)न्त्य-न्त्यम् वृपू १, १५.
 प्रथमा(म-अ)भ्यास-से नाद ३३.
 प्रथमाभ्यास-काल-ले १थोत
 ३०.
 प्रथमा(म-अ)र्ण-र्णम् रार २, ११.
 प्रथमा(म-अ)वरण-णे सूता ५, ५.
 प्रथमा(म-अ)स्तमित-त्ते छां २,
 ९, ८.

प्रथमो(म-उ)त्तम-मे वृ ५, ५, १.
 प्रथमो(म-उ)दित-ते छां २, ९, ३.
 प्र दक्षिण^१-णम् तेद, २३; मं२, २,
 ५; कद १; आपू ५; तुल ७०:९;
 दि १, २७; ७, ८; ८९; कश्चु २, २.
 प्रादक्षिण्य-ण्यम् भा ३८;
 -ण्यात् तुल ७० : ७.
 प्रादक्षिण-क्रम-मेण वरा ५, २७.
 प्रादक्षिण-प्रय-यम् वि १०.
 प्रादक्षिण-नमस्कार-रम् त्रिवि ८,
 १३^०; -रान् त्रिवि ५, १४; ६,
 २०; २१; २३; २५^०; ७, १५; ८,
 ५; १७.
 प्रादक्षिणनमस्कार-पूर्वक-कम्^१
 नाप ४, ३८; त्रिवि ५, १२; १३.
 प्रादक्षिण-पूर्वक-कम्^१ त्रिवि १, ४.
 प्रादक्षिणी/क
 प्रादक्षिणी-कृत्य हं ६; १थोत ४०;
 अक्ष १५.
 प्रदर्शित-प्र/दृश द.
 प्र/दृह, प्रधाक्षी: छां ६, १, २.
 प्र/दा(दाने), > दावि, प्रदधात् सि ५,
 ३०; ६, ५५; ७०; ७२; २२५;
 २२७; २४१; २५७; २६१;
 २६७; २७०; २७३; २७७; ७,
 ९२; ९३.
 प्रददी छां १, १०, ३; सांका ७७;
 प्रदास्यामि रार ४, १३; प्रादात्
 अव्य ६^०.
 प्रदीयन्ते नाद २, ७^०.
 प्रदाप्येत् नाप ४, ८; त्रिवि ४८;
 ६ १४ : १.
 प्र-दत्त, स्या-त्तम् सार २३२:२२;
 २३४:१६; -त्ता सार २३४:१७.
 प्र-दात्तव्य, ध्या-ध्वम् त्रिवि ४७;
 ४८; सि ६, ४३; -ध्या सि ६,
 १७०.

a) मा १३, ३ । b) ऋ १०, ८३, ७ । c) ऋ १, १६४, ५० । d) ऋ ९, ९७, ४० । e) कौ ३, १, ९ । f) 'प्रथम-
 प्राम्' इति मा ३२, ११ । g) भाष्य^० इति निता., पूर्वप^० इति आन. । h) प्रथमभू^० इति अय्या. । i) 'स्ताव^० इति
 निता. । j) उप. = १७दित- । k) 'रार इति अय्या. संटि. । l) वा. क्वि. द. । m) 'येत् इति अय्या. संटि. ।

प्र-दाह- -तारम् शि ६, २८१.
 प्र-दान- -नम् शां २, १; -नस्य शि
 ६, ७०.
 प्रदान-वत् प्रस् ३, ३, ४३.
 प्र-दाय वृ ६, ४, २७; गोच ६९:७.
 प्र-देय, या- -यम् सूता ६, ६; शि ७,
 ७९; -या: शि ६, ७५.
 प्र/दिश
 प्र-दिष्ट- -ष्टम् गी ८, २८.
 प्र-देशि(न>)नी^१- -न्या प्रा १, ६.
 प्रदेशिनी-मूल- -ले शि ५, ४६.
 प्र-दिश^२- -दिश: श्वे २, १६९^३; मना १,
 ३९^४; ४९^५; अशि ५, १९^६; मवा
 ९९^७; वा १७; मता १, १०^८; वड
 ३१६: २०^९; २शिसं २.
 प्र/दीप
 प्र-दीप- -पम् शि ७, ७१.
 प्रदीप-कल्प- -ल्पा: सांका ३६.
 प्रदीप-प्रताप-
 प्रदीपप्रताप-वत् मैत्रि ६,
 ३८.
 प्रदीप-वत् अ २: कुं २३; सांका
 १३; प्रस् ४, ४, १५.
 प्र-दीपन- -नम् योचू ९९; शां १,
 ७, ८.
 प्र-दीप्त- -प्तम् गी ११, २९.
 प्र-दीप्यमा(न>)ना- -ना: सार
 २३७: ४.
 प्र/दुष्, प्रदुष्यन्ति गी १, ४१.
 प्र/दुष्, प्रदुष्ये मना १, २९^०.
 प्र/दू, प्रदूयन्ते, प्रदूयेत छां ५,
 २४, ३.
 प्र/दृष्ट, > दृष्टि, प्रदृश्यते रुजा १,
 १४; शि ७, ६५.
 प्र-दृशित, ता- -त: नाद ५; -ता
 सुद १, ५.
 प्र-देश- -शाव् प्रस् २, ३, ५३; -शो गी
 ४, ३३; सौ २, २.

प्रदेशी-
 प्रादेश-माप्र- -ग्रम् छां ५,
 १८, १.
 प्र/द्युत्, प्रद्योतते वृ ४, ४, २.
 प्र-द्योत- -तेन वृ ४, ४, २.
 प्र-द्योतमा(न>)ना- -ना सार
 २६९: २२.
 प्र-द्योति(त>)ता^१- -ता सार २५३:
 १०.
 प्रद्युस्त^२- -प्र: गोउ ३५; ४२; -स्तम्
 त्रिमा २, १४४; -स्तस्य गोउ २५:
 -ज्ञाय शु २, ५; त्रिवि ७, ४१.
 प्रद्युस्त-मूर्ति- -ति: गोउ २५.
 प्रद्युस्त-सं(शा>)ज्ञ- -ज्ञम् सं ३.
 प्र/द्रा
 प्र-द्राण-
 प्रद्राण-क- -क: छां १, १०, १.
 प्र/द्रु, प्रद्रुदाव वृ ६, २, ३.
 प्र/द्विप्
 प्र-द्विपत्- -पन्त: गी १६, १८.
 प्र/धा
 प्र-धान, ना^१- -न अक्ष ५; -न: मैत्रि
 ६, १०; वस् ३; पा १, ६; २, १;
 -नम् श्वे १, १०; नाप ९, ९; शारी
 ९; त्रिमा २, ७८; १ शील ३: ४;
 भव २, १३; १४; ६८; सांस् २,
 ४०; ३, ७३; सांका ११; वड ३,
 ५९; ४, ९; -नस्य मैत्रि ६, १०^३;
 सांस् २, १; ३, ५९; ६३; ७०; ६,
 ३८; ४०; ४३; सांका २१; ५७;
 प्रस् ३, १, ११; -ना: ध्या ५२;
 योचू १६; २४; पा १, १०.
 प्राधान्य- -न्यम् सांस् २,
 ४७; -श्वेन त्रिवि २, १०.
 प्राधान्य-तत्त (>) गी
 १०, १५.
 प्राधान-कार्य-
 प्राधानकार्य-स्व- -स्वस्य

सांस् ५, १२.
 प्रधान-क्षेत्रज्ञ-पति- -ति: श्वे
 ६, १६; भव २, ४७.
 प्रधान-वेष्टा- -ष्टा सांस् ३, ५१.
 प्रधान-ज- -जै: श्वे ६, १०; भव
 २, ४८.
 प्रधान-ज्ञय- -य: योस् ३, ४९.
 १ प्रधान-पुरुष^१- -प: पै १, १५.
 २ प्रधान-पुरुष^२-
 प्रधानपुरुषा(प-अ)न्तर-
 -रम् सांका ३७.
 प्रधान-बाधक-
 प्रधानबाधक-स्व- -स्वम्
 सांस् ५, ११९.
 प्रधान-विनिवृत्ति- -श्वे: सांका ६८.
 प्रधान-व्यपदेश- -शाव् सांस्
 १, १२५.
 प्रधान-शक्ति-योग- -गाव् सांस्
 ५, ८.
 प्रधान-संबन्ध- -रा: महा १, १.
 प्रधान-सृष्टि- -ष्टि: सांस् ३, ५८.
 प्रधाना((न-अ)रम्)- -स्मा गोउ
 ६४^६.
 प्रधाना(न-अ)लुब्धति- -ति:
 सांस् ६, ३५.
 प्रधाना(न-अ)न्त: -स्थ- -स्थ:
 मैत्रि ६, १०.
 प्रधाना(न-अ)विवेक- -काव्
 सांस् १, ५७.
 प्र-धि- -धय: छाग २५: २०; -धि:
 वृ १, ५, १५; -धिना वृ १, ५,
 १५; वा १६.
 प्र/धाक्(गती), प्रधावति ध्या ७९;
 योचू ५१; योशि ५, ४१; ६, १५;
 यो १, ६२; प्रधावन्ति त्रिवि ४,
 १४; राज ५, १०.
 प्र/घृ>घारि, प्रघारयेत् वृजा ३, ३३;
 ४, १.

a) वैपश् यद्। b) मा ३२, ४। c) मा ३२, ११। d) तैआ ३, १२, ७। e) तैआ १०, १२। f) पा १,
 २, २१। g) व्यु १ = वाङ्मदेवपुत्र-। h) विप. वा नाप. वा। i) कस्.। j) द्रस.। k) 'प्रियात् आत्मा' इति आन.।

प्र/घमा, प्रध्मतुः गी १, १४.
 प्र-घ्माय—
 √प्रघ्माय्, प्रघ्मायीत् छां ६,
 १४, १७.
 प्र/घ्यै
 प्र-घ्यायितव्य- -न्यम् अ ३.
 प्र/घ्वंसु, प्रघ्वंसते छां ८, १, ४.
 प्र-घ्वंसन्^० -नः, -नात् वृ २, ६, ३;
 ४, ६, ३.
 *प्रघ्वंसन्^१ -नः, -नात् वृ २, ६,
 ३; ४, ६, ३.
 प्र/पञ्च, प्रपञ्च्यते ते ५, ४६.
 प्र-पञ्च^१ -ञ्चः श्वे ६, ६; गौ १, १७;
 ते १, २१; आयो १२; त्रिवि ३,
 ३; अक्ष ५, ७६; जाद १०, ३;
 सार २८९ : १७; १कौल २ : ४;
 ३ : १; -ञ्चम् ते ५, १०, ३१;
 ३२^१; ७५; नाप ९, १८; १संन्या
 २, १००; -ञ्चस्य ते १, ३२; नाद
 २५; मं २, ३, ४; योशि ४, ३;
 -ञ्चाः (ःघः^०) २कौल २; -ञ्चे नाद
 २८; योशि ४, २०.
 प्रापञ्चिक—
 प्रापञ्चिक-पराह-सुख-
 -खैः नाप १.
 प्रापञ्चिक-शिक्षो(खा-उ)-
 पवीत- -सम् पत्र २.
 प्रपञ्च-ज्ञान- -नम् त्रिवि ६, १.
 प्रपञ्च-ख- -ख्यात् नाद २८.
 प्रपञ्चखा(त्व-आ)पदि-ञ्च-
 भाव- -वः सांस् ३, २१°.
 प्रपञ्च-बीज- -ञ्जम् सी ३.
 प्रपञ्च-सुक्त-चित्त- -त्तः मैत्रे ३,
 २०.
 प्रपञ्च-रहस्य- -स्पम् त्रिवि ६,
 १०.

प्रपञ्च-रहित- -तः मैत्रे ३, २०.
 प्रपञ्च-लय- -यः मं २, ३, ४.
 प्रपञ्च-वृत्ति- -त्तिम् नाप ७;
 १संन्या २, ७९.
 प्रपञ्च-हीन- -नः वृउ ३, ७.
 प्रपञ्चा(श-आ)धार-रूप- -पेण
 आयो १३.
 प्रपञ्चा(श-अ)नुभव- -वः वरा
 २, ३१.
 प्रपञ्चा(श-अ)भि-मुख- -लम्
 त्रिना २, १५.
 प्रपञ्चा(श-अ)वाह-मुख- -खः
 नाप ५, ३१.
 प्रपञ्चो(श-ई)श्वर- -रः २कौल
 २१^१.
 प्रपञ्चो(श-उ)पत्ति-क्रम- -मः
 त्रिवि ३, १.
 प्रपञ्चो(श-उ)परत- -तः नाप
 ५, १; १संन्या २, १३.
 प्रपञ्चो(श-उ)पशाम- -मः मां
 १२; गौ २, ३५; त्रिवि ९९; वृउ
 २, १०; -मम् मां ७; वृपू ४, ७;
 वृउ १, १२; नाप ८, २०; राउ
 ३, १; वउ १, १५; ५, ४०.
 प्रपञ्चो(श-उ)पशाम(न>)नी-
 -नीम् विषा ४.
 प्रपञ्चमान- -नम् ते ४, ५१.
 प्र/पत्(गौ), प्रपतन्ति मैत्रि ६, १२;
 प्रापत् ए २, १.
 प्र-पत्- -त्त्वं पा ९, ५.
 प्र-पतन- -नम् मै १, ७; मैत्रि १,
 ४; मैत्रे १, २.
 प्र/पद्, प्रपद्यते श्वे ४, २१; गौ
 ४, ३५; ५५; मैत्रि ६, ३०;
 अध्या ५५; कुं ६; २१; सार
 २८९ : २३; २९२ : १०; १६;

पित्र २, ७; गौ ७, १९; प्रपद्यन्ते
 क २, २, ७; लु २०; म २, ३०;
 इ १६; ९; गौ ४, ११; ७; १४;
 १५, २०; प्रपद्ये छां ३, १५,
 ३^१; ४; ५^०-७^०; ८, १३, १^१; १४,
 १; श्वे ६, १८; गर्भ ४^१; मना १,
 १२५^१; २, १५^१; वृपू ३, ४; त्रिवि
 ७, ३९; कुं १४^१; त्रिता ५,
 २१; दे ४५^१; १९; गार ४०८:
 १२; गुं ७२; व ४५७ : ११;
 ४६१ : ९५^१; ४६५ : २१५^१; वपू
 २, २; गौ १५, ४; प्रपद्यामि मना
 २, १७५^१; प्र...पद्यस्व ते १, ४,
 ३; प्रपद्ये ऐ ३, ११; प्रापद्यत
 ऐ ३, १२^१; प्रपद्येत य १०; सु
 २९३ : १०.
 प्रपद्ये सार २२६ : १४; प्रपदिरे
 सार २९२ : ८; ९; पित्र ५, ४;
 प्रापत्सि छा ३, १५, ४.
 प्र-पद- -दाः गु २२.
 प्र-पदन- -नम् छां ८, ६, ५.
 प्र-पद्य १आ २५; सार २४४ : १३;
 १४; २९२ : ८.
 प्र-पद्यमान- -नः सार २५७ : ११;
 २९२ : ११.
 प्र-पद्म, छा- -ञ्चः छां २, २२, ३; ४^१;
 म २, २०; वा २२; सार २२७ :
 ११; व ४५८ : १४; -ञ्चम् गौ
 २, ७; -ञ्चा सार २२२ : ३; -ञ्चाः
 सार २३१ : ८; १०; २३४ : २३;
 २५४ : १४; -ञ्चानाम् सार २५०
 १३; -ञ्चाम् सार २५६ : १२.
 प्र/पश, प्रपद्यति योशि ४, ९; शि
 ४, ५५; ६, १८५^१; प्रपद्यन्ति
 पाशु २, ३३; रह ४९; अक्ष
 ४, ३६; प्रपद्यसि ते ५, ७२;

a) वृ. टि. भा/घ्मा > *भा-घ्माय-। b) 'प्रधावेत्' इति BCH.। c) = गौ प्रपद्यते-क-श्रुतिपिबिधेय-।
 d) पा. १ यनि. शोषः द. (वृ. १कौल २ : ४)। e) *ञ्चमरणायभावः इत्यपि पाठे.। f) पा. १ 'प्रपञ्च ईश्वरः' इति शोषः द.
 (वृ. १कौल ३ : २)। g) वा. क्वि. द.। h) तैष्वा १०, १, १२। i) सि १०, १२७, १२। j) 'प्रपद्यते' इति श्रव्याः।
 k) तैष्वा १०, ४३, १। l) पा. १ 'प्रपद्यन्ति' इति शोषः द.।

प्रपश्यामि गी २, ८; प्रपश्य गी
११, ४९; प्रपश्येत् श्वे २, १५.
प्रपश्यन्-श्यतः या २, १९;
-श्यद्भिः गी १, ३९; -श्यन् वरा
२, ३१; या २.
प्रपश्यन्ती-न्याः महा ४,
११५.
प्र/पा(पाने)>विष्, प्रविषेत् योशि
१, ११७.
प्र-पारि^{१०}-
प्रपा-पान-
प्रपापान-तस(>) दत्ता ३.
प्र-पितामह-हः गी ११, ३९.
प्र/पीह्>पीधि, प्रपीडयेत् यो १,
४९.
प्र-पीडय श्वे २, ९; योच् ६६; भव
३, २६.
प्र/पूज्>पूजि, प्रपूजयेत् शा १, ७,
३८; योशि ५, ३७; सूता ६, ८;
शि २, २६.
प्रपूजयन्ते जाद ४, ५२°.
प्र-पूजय त्रिवि ८, १७.
प्र/पू>पर, परि, प्रपरयेत् योच् ११९.
प्र-पूर्ज-
प्रपूर्ण-धी-धीः अन्न ५, ११५.
प्र-प्र^१/दा(दाने)
प्रम-दात्-तारम् प्रा १, ४५°.
प्र/प्लु, प्रप्लवस्व अठ ७५°.
प्र-फर्वा^१-न्यम् वृ ६, ४, १९, १५°.
प्र/कुल्लु
प्र-कुल्ल-हानि सार २२२: १४.
प्रकुल्ल-कमले(ल-ई)क्षण-णम्
शां ३, २.

प्र-कुल्लित, ता-ता: सार २२६: ४;
२२९: १२; २६९: २३; २७०:
१; २७६: १८; -तानि सार
२७०: १.
प्रकुल्लित-कृता-प्रथित-पर-
स्पर-शुभा(म-श्र)ह-शोभन-
चन्दन-वृक्षा(च-श्र)वलम्बि-
त-ता: सार २८६: २३.
प्र/वन्ध्, प्रवधन्ति महा ४, ९४;
प्रवध्नीयात् योच् ११९.
प्र-वध्-हः छां ६, ८, २.
प्र/वाष्, प्रवाषते योशि १, ६४.
प्रवाष्यते योशि १, २८.
प्र/वुष्, >योधि, प्रवुष्यते गौ १,
१६.
प्रवोधयेत् त्रिवि ७०; शि ७,
३१.
प्र-वुद्ध, द्वा-हः कै १, १४; मैत्रे
३, १४; शु ३, ९; महा ६, २७;
अन्न ३, १२; वरा २, ५८; या
२, २३; -हस्य महा ५, १६;
-द्वा ध्या ६६; योच् ३८; -द्वा:
या २, २२; -द्वानाम् ते १, ३३.
प्रवुद्ध-वुद्धि-द्धिः महा ५,
१०६.
प्रवुद्ध-रजु-रस्य-रवस्य सांस्
३, ६६.
प्र-वुद्धवत्-वान् अन्न ३, १२.
प्र-वोध-धः गौ ३, ४०; वरा ५,
४९; मयू ३, २, ८; -धम् सार
२२९: २२; -धव् अध्या ५०;
-धे महा ५, १०८।
प्रवोध-पूर्ण-पात्र-त्रे द १५.

प्र/म्, प्रमूते वृ १, ४, १; प्रमवीमि
क १, १, १४; प्रमूहि क १, १,
१३; छां ४, १०, ३; प्रमूतम् छां
८, ८, १; प्रमवाम>मा छां ४,
१०, ४; मना २, १२, २५; म १,
६; प्रमयात् छां ३, ११, ५; ६, १४,
२; कौ १, ७; शा ३३; वृष ८५:
१९; शि ६, १६३.
प्र/मञ्ज्
प्र-मञ्जन-नम् सुवा २, १५; त्रिमा
२, १३६; -नाय वृजा ४, २९.
प्रमयिष्णु-प्र/मू ह.
प्र/भा, प्र...माहि ते १, ४, ३।
प्र-भा-भा ध्या २७; गार ४०७:
१८५^m; गी ७, ८; -भाम् योच्
१२१.
प्रभा-क(र>)री^१-री त्रिता १,
६९.
प्रभा(भा-श्र)न्वि(त>)ता-
ताम् शि ६, ११८.
प्रभा-पुञ्ज-ञ्जेन त्रिता ४, २८.
प्रभा-मप्य-गत-सम् ध्या २७.
प्रभा-मनो-वुद्धि-शून्य-न्यम्
वे ४, ९.
प्रभा-शून्य-न्यम् सौ २, १७;
मु २, २, ५५.
प्रभा-हीन-नान् राप् १, ४.
प्र-भात-सम् गौ ४, ८१.
प्रभाव-प्र/मू ह.
प्रभावाति^१ मना २, ३७; व ४६१:
२१.
प्र/भाप्, प्रभाषते शि १, ४; प्रभाषेत्
गौ २, ५४.

a) पा ७, ३, ७८ । b) वैप १ श्र. । c) 'प्रपद्यन्ते' इति श्रव्या । d) पा ८, १, ६ । e) मा ११, ८३ ।
f) 'मा सुवस्व' इति तैश्चा १, २७, १ । g) 'प्रपर्याम्' इति श्रान. (तु. व्यागि.) 'प्रफर्वाम्' इति निसा. च यनि. शोधः
द. [तु. टि. वैप २, ६८४ (तु. श्र १०, ८५, २२)] । h) वैतु. पा ७, ४, ८९; ८, २, ५५ । i) 'चधि' इति निसा. यनि.
शोधः द. । j) श्र ४, ५८, २ । k) 'हृष्यवाहनाय' इति श्रव्या । l) 'प्र...माहि' इति निसा. । m) =देवी-
विशेष- । n) पा ३, २, २१; ४, १, १५ । o) पा १ [तु. निसा., तैश्चा. (कालि., मैत्र. १०, १५, १)] 'पृणिः सूर्यः
(=रिषः) आदित्यस्तमर्चयन्त्य (=न्तिश्र) क्षरम् । तपः सत्यं मधु क्षरन्ति तद् रसं, सत्यं (=तिश्र) वै तत्, तद्
मह तद् भावः' इत्येवमानुष्टुभाभिस्तद्वहृत-जागतप्रैष्टुभानुष्ठीमदुरीयपादः शोधरतन तत्र मूले वयायोगं नेवः ? ।

प्र-भास¹⁰-सः वृजा ४, १६.
प्र/भिद्, >भेदि, प्र...भमिदम् वा
१०^०.

प्रभिमन्ते क २, ३, १५.

प्रभेदयेत् योचू ३९.

प्र/भुज्, प्रभुङ्के १अव ६^१.

प्र/भू, प्रभवति सी १३; वप् २, १;

गी ८, ११; प्रभवन्ते सुं २, १, १;

प्रभवन्ति प्र ६, २; सुं २, १, ८;

मना २, १२, १९^०; महा ५, २;

गी ८, १८; १६, ९; प्रभवेत् वरा

२, ३.

प्र-भव, वा- -वः ९^०धे ३, ४; ४,

१२; गी १, ६; मैत्रि ३, १; योचू

७६^०; ७७; ए ६; गी ७, ६; ९,

१८; १०, ८; -वम् गी १०, २; -वा

यु ५६; -वाः सार २८५ : १४;

-वात् वस् १, ३, २८.

प्रभवा(व-श्च)व्यय- -यौ क २,

३, ११; मां ६; वृप् ४, ६; वृत्

१, ९; नाप ८, १४; राउ ३, १;

विवा ४; वउ १, १२.

प्र-भविष्यु- -ष्यवे पा ९, ४; -ष्यु

गी १३, १६.

प्र-भाव- -वम् वृजा ६, १०; -वात्

सु १९^०.

प्रभाव-तस्(>) वृजा ६, २.

प्रभावरूप-

प्रभावरूपि(न>)णी- णी

सी १२.

प्र-सु- -मवः हां ७, ६, १; -सुः धे

३, १२; गी १, १०; २, १३; मे

४, ४, १४; मैत्रि ६, १६; मना

२, ७१^०; वृप् १, ८; वउ २, ११;

ते ३, ४२; ४, ३२; ५, ६७;

६, ३५; ३६; प्रवि ४३; १००;

नाप ८, ८; ९; वरा ४, ३२; कर्

५३; सु २९३; १७९^०; शि १, १५;

हे ५; गु ४२; चू ७; गी ५, १४; ९,

१८; २४; -भुम् श्रे ३, १७; कै

१, ७; मै ३, २; मैत्रि ३, २; वृजा

४, २९; श २^१; शां ३, १; ए

१३; यु ५५; -भूणाम् हे ५;

-०भो गोप् ४३; वउ ३, ३३; गी

११, ४; १४, २१; -भोः गी १, ८.

प्रभु-विमित्त- -तम् हां ८, ५, ३.

प्र-भू- -भूः शृ ६, ३, ४.

प्र-भूत्, ता- -ताः योशि १, १५४;

-तैः सांका ३९.

प्राम्भूत्- -तम् पा १, २.

प्र-भूति- -तिम् पा ८, ३.

प्र/मज्ज्, प्रमज्जते सिशि ३८१ : ४.

प्र/मथ्

प्र-मया¹⁰- -यान् म १, २; -यैः वि

२०.

प्रमय-पति- -तये ग १५.

प्र-माथिद्- -थि मी ६, ३४; -थीनि

गी २, ६०.

प्र/मद्, >माद्, प्रमदत् छाग २४: १.

प्रमाद्यति तै २, ५, १.

प्रमदः तै १, ११, १.

प्र-मत्त-

प्रमत्त-ता- -ता यो १, ५९.

प्र-म(द>)दा- -दाम् नाप ६, ३१.

प्रमदा-सुहृद्- -हृदम् नाप ३,

६९^१.

प्र-मदितस्य- -स्यम् तै १, ११, १^०;

२; म २, १६^१.

प्र-माद- -दः मैत्रि ३, ५; १संन्या २,

८४; अघ्या १४^१; गी १४, १३;

-दात् सुं ३, २, ४; योशि १, १४१;

२, ३; म १, ७; ८; गी ११, ४१; दे

गी १४, ९; -देन म १, ९; २, १६;

२१; इ १४: २; सार २३५: ४;

२७३ : ७.

प्रमाद-तस्(>) योशि १, ७६.

प्रमाद-मोह- -हौ गी १४, १७.

प्रमादा(द-श्च)लस्य-निद्रा-

-द्रामिः गी १४, ८.

प्र-मादिन्- -दिनः या २, २.

प्र-माद्यत्- -द्यन्तम् क १, २, ६.

प्र/मा(माने), प्रमीयते मैत्रि ६, १४.

प्र-मा¹⁰- -मा सांस् १, ८७.

प्र-माण- -णम् मैत्रि ६, १४; बाला

११; त्रिवि ३२^१; पाशु १, २३;

कृ ३७; ४०; जाद ४, ५१;

जावा १९; सु २, १, १^१; गा १६;

सांस् १, ८७; सांका ४; गी ३,

२१; १६, २४; -णात् अक्ष ४,

३४; पाशु २, ५^१; हृह ४६; सांस्

१, १०२; सांका ४; -णानि योस्

१, ७; -णे १आ ६; -णेन मैत्रि ६,

१४; शि २, १३; -णैः दृष्ट ९, ८.

प्रमाण्य- -ष्यम् स्व ६१ :

३; निह १, २२.

प्रमाण-कुशल- -लैः सांस् १, ४.

प्रमाण-तस्(>) वस् ४, २, ९.

प्रमाण-ता- -ताम् मैत्रि ६, १४.

प्रमाण-दृष्ट- -दृष्ट्य सांस् २, २५.

प्रमाण-प्रमेय- -वात् सार २२० :

१७.

प्रमाण-विपर्यय-विकल्प-निद्रा-

स्मृति¹⁰- -तयः योस् १, ९.

प्रमाण-विरोध- -घः सांस् ६,

४७.

प्रमाण-सुस्तुत्व- -स्त्वम् १आ ६.

प्रमाणा(ण-श्च)दि-बोद्धा-

पदार्थ- -थैः(१वां:*)अद्वैता १३.

a) म्यु. ३ = षड्विरोध- । b) वृ. सत्य. टि. ?बहु(ण>)णा- । c) तैष्ठा १०, १०, १। d) 'प्रथमम्' इति तैष्ठा १०, १०, ३। e) 'मवात्' इति अघ्या. । f) तैष्ठा १०, ३८, १। g) श्र ९, ८३, १। h) = शिवाणविवोच- । i) पा ७, ३, ७४। j) 'मादात्सु' इति अघ्या. । k) पा ३, २, १४१। l) प्रमाणं नि०, प्रमाणाभि० इति अघ्या. संदि. । m) = विपारि- । n) पा. १. यनि. शोषः ६. ।

प्रमाण(ख-अ)न्तरा(र-अ)-
 बकाश- -शाव सांस् ५, २२.
 प्रमाण(ख-अ)प्रमाण-साधार-
 (ण>)णा- -णा ससा १, ३९.
 प्रमाण(ख-अ)भाव- -वाव सांस्
 ५, १०; ९९; ६, ६४.
 प्र-भाष- -सा कठ ३७; ३९.
 प्र-मित- -तः प्रस् १, ३, २४; -तम्
 कौ १, ३; ५.
 प्र-मेय- -यः मैत्रि ६, १४; -यम् कठ
 ३७; ४०; -यस्य मैत्रि ६,
 १४.
 प्रमेय-सिद्धि- -द्धिः सांका ४.
 प्र/मी, प्रमीयते मना २, ८०^{१७}; कौ
 ४, १३^{१७}; आर्षे ९, ८; इ १०:
 १५^१; १६.
 प्र-मायुक- -कम् वृ १, ४, ८.
 प्र-मुख- -खे गौ २, ६.
 प्र/मुख, म्, प्रमुख नी २, ८^{१७}.
 प्रमुख्यते क १, ३, १५; वृ ४, ३,
 ३६; कै १, १७; ना ५; मना १,
 १५^{१७}; प्या ६४; १योत १;
 ९०; २योत १, १; नाप ९, १;
 त्रिभ्रा २, १०२; योक् ३४; रार
 १, ९; योशि ३, १; ६, २५; ३०;
 अच्य ७; २७; ३०; दे २१; रूढ
 १७; २५; यो १, १७; म १, ११;
 २, १४; रुजा २, १८; ग १६;
 १८^१; मवा १२; वरा २, ३२;
 योरा १५; वि २१; सूता २, २१;
 दुल ७१:२३; ७२: १^१; २; शि
 १, २०; ६, १९४; हे ९; कालि
 ४०३: ९; गी ५, ३; १०, ३;
 प्रमुख्यन्ते क २, १४; वृ ४, ४,
 ७; शा २५; सिशि ३८०: ६;
 प्रमुख्ये गर्भे ४^{१७}; प्रमुख्येत

सूता १, ४१.
 प्र-मुक्त- -क्तम् क १, १, ११.
 प्र-मुख्य छां ६, १४, २; ८, १३, १.
 प्र/मुद्, प्रमोदते शि ६, २; २६; ३०;
 ३६; १००; १८२; २४६.
 प्र-मुद्- -मुदः वृ ४, ३, १०^१.
 प्र-मुदा-
 प्रमुदित(त>)ता- -ता १संन्या
 २, ५७.
 प्र-मोद- -दः तैर, ५, १; ते ४, २२;
 १अव ३; वठ १, २२.
 प्र/मुप, प्रमोषीः मना २, ५१^{१७}; १^{१७}व
 ४४१: १; ४४६: ७; ४५१:
 ३; ४५४: १०.
 प्र/मुह
 प्र-मुह- -डाः सुं १, २, १०; सिशि
 ३८०: ५.
 प्र/मृज्
 प्र-मृज्य वृजा ३, २६; पा ६, ६.
 प्र/मृण्
 प्र-मृणत्- -णत् वृ ४६०: १७^{१७}.
 प्र/यच्छ, यम्(दाने), प्रयच्छति वृ १,
 ५, २; ६, ४, १९; २७; ते ३, ७०;
 ७३; त्रिवि ८, १२; रार २, ८७;
 योशि २, ३; महा ५, ८१; इ १३:
 ६; १७: १; शि ६, २४३; ७, २;
 ७३; ९६; गी ९, २६; प्रयच्छन्ति
 सु २, २, १२; २प्र ३५: १९^{१७};
 सांका ३६; प्रयच्छ नाप ४, ३८;
 त्रिवि ८, १७; इ ७; ८; १संन्या
 २, ६; प्रायच्छत् वृ १, ५, १; २;
 ३, ३, २; मैत्रि ६, ३३^१; वृपू २,
 १; ह२; मरु १; वृ ४६५: ३;
 प्रायच्छम् कौ ३, ११^{१७}; प्रयच्छेत
 छां ५, २४, ४.
 प्रयत्ति कौ २, ११^{१७}.

प्र/यज्

प्र-याज^{१७}- -जाः प्रा ४, १.

प्र-यत्- १प्रे द.

प्र/यत्

प्र-यत्- -त्तः सौ २, २; -यम् नाद
 ५६; -मात् गोपू २१^{१७}; गौ ६,
 ४५; -येन मै ४, ४, ३; मैत्रि ६,
 ३४; मैत्रे १, ४, ५; वृजा ३, ६;
 नाप ३, ७२; महा ४, २१; १०२;
 ५, ३३; योशि २, २१; अज ४,
 ५५; ७४; अता ११; योक् ७०;
 वरा ३, २१; सु २, २, ६; ७; १५;
 ६३; सूता १, ४०; शि ५, ९; ६,
 २२४; भव १, ४७.
 प्रयत्-त्स(१) गौ ३, ४५; त्रिवि
 ४६; १योत ३३^१; महा ३, २१;
 योशि १, १०८; २, ३; ६, ५९;
 योरा ११; शि ६, १९५; ७,
 ७१; ९९; भव ५, ११.

प्रयत्-वत्- -वान् सारद ९१: १.

प्रयत्-दोषिल्या(त्य-अ)नन्त-
 समापत्ति- -त्तिभ्याम् योस् २,
 ४७.

प्र/यम्(नियमने)

प्र-यत्- -सः क १, ३, १७; म २,

२४; २शिसं २१; -तैः म २, २६.

प्रयत्(त-आ)त्मन्- -त्मनः गौ
 ९, २६.

प्र/यस्

प्र-यास-

प्रयास-प्रवाहो(ह-ठ)परम- -मे
 पित्र ५, ३.

प्रयास-प्राण-चिन्वन- -नात्
 यो १, ५७.

प्र/या, > यियास, प्रयाति मै ३, २;
 ४, ५; मैत्रि ५, २; कौ २, ५;

४) तैत्रा १०, ६४, १^१. b) 'प्रेति' इति शांभा ६, १४। c) मा १६, ९। d) तैत्रा १०, १, १५।

e) 'प्रमुखाभि' इति अथ्या। f) निदादित्वम् उक्तं. (पा ३, ३, १०४)। g) तैत्रा ३, १५, १। h) श्र १, २४, ११।

i) श्र १०, ८४, ३। j) पा १, 'पृच्छन्ति' इति शोधः द. (ग्र. गोमा १, १, २७)। k) 'प्रायच्छत्' इति शांभा ५, १।

l) श्र ३, ३६, १०। m) पा ७, ३, ६२। n) अत्र' इति अथ्या. संति.।

शां१,४; पे२,५१; महा५,१२५;
१संन्या २, ३५; यो १, ६८; २,
३४; जाद ६, ३५; गी ८, ५; १३;
प्रयान्ति सुं १, २, ११; मै १, ५०;
मैत्रि ६, १४; महा ६, २०; वरा
४, ३८; हे १४; प्रयातु १संन्या
२, ३५; प्रयान्तु शि ६, १५९;
प्रायात् महा २, २०.
प्रयास्यन्ति सु २९४: १२.
प्र-याण- -णम् योच् ९३.
प्रयाण-काल- -ले गी ७, ३०;
८, २; १०.
प्र-यात्- -यान्तम् शि ७, ३२.
प्र-यात्- -त्तः मै ३, २; मैत्रि ३, २;
६, ३०; -त्ताः मैत्रि १, ४०; ७,
१०; वरा ३, २२; गी ८, २३;
२४.
प्र-यियासत्- -सन्तम् वृ ४, ३, ३८.
प्रयाग^०- -गम् जाद ४, ४९; शि ६,
१९२.
प्रयाग(ग-आदि-तीर्थो(र्थ-उ)-क-
प्रायश्चित्त- -शत- -त्तैः राउ ५,
१९.

प्र/यु

प्र-युत्^०- -न्तम् २शिसं १३५.
प्र-युति^०- -न्ती मना २, ६०५.
प्र/युज्, > योजि, प्रायुक्त नार १.
प्रयुज्यते अ ३; गी १७, २६.
प्रयोजयति सार २९२: ६; प्र-
योजयेद् द्वे २, १०; भव ३, २३.
प्र-युक्त, क्त- -क्तः अ १; गी ३, ३६;
-कम् अ १; -क्ताः, -क्तासु
प्र ५, ६.
प्र-युज्य गोउ ३.
प्र-युज्यमान- -नाः सार २९२: ३; ४.
प्र-युज्जान- -न्तः अक्ष १६; दे २२;
म १, ११; रुजा ३, १; ग १६; महा

१२; इ १०: १६; १७; तिसि
३८३: १४.
प्र-योग- -णेण अक्ष ४, ७३; -नैः
अक्ष ४, ४४.
प्रयोग-बीज- -जानि व ४५६:
३.
प्रयोग-विषय- -ये व ४३१: ३.
प्रयोग-स्थ- -स्थम् मैत्रि ६, १.
प्र-योग- -ग्ये छां ८, १२, ३.
प्र-योजक- -कम् योसु ४, ५.
प्र-योजन- -न्तम् ते ६, १०; पै ४,
९; सु २, १, १; सांका ६६.
प्रयोजन-वत्-
प्रयोजनवत्-स्व- -स्वात् वसु
२, १, ३२.
प्रयोजना(न-अ)भाव- -वात्
वसु ३, ३, १४.
प्रयोजना(न-अ)र्थ- -र्थम् रुह
१५.

प्र/रुह, प्ररोहति वृ ३, ९, २८, ४;
६; प्ररोहेयुः छां ५, २, ३; वृ ६,
३, ७-१२.

प्र-रुढ- -ढम् पा ८, ४.
प्र-रोहण- -णम् वरा ३, २४.
प्र-रोह(त्)>न्ती- -न्ती मना
१, ७; व ४६४: ५.

प्र/लक्ष् > लक्षि, प्रलक्षयते अक्ष १, ७.

प्र/लप् प्र-लप्त्- -पन् १संन्या २, ४७; गी
५, ९.

प्र/लभ् प्र-लभ्य- -भ्यः नाप ५, २७.
प्रलभ्यक^१- -क्तः व ४४६: १०.

प्र/ली प्रलीयते अ १; सुवा २; अक्ष
४, १९; सौ २, १५; सार २९२:
१८; गी ८, १९; प्रलीयन्ते ना
१; सुवा २; मन्त्रि १८; त्रिभि

२, १६; ३, ४; सं ६; चू १८;
गी ८, १८.

प्र-लय- -यः अ १; त्रिभि ३, ४-६;
४, १२; गु २३; पित्र १, १४५;
गी ७, ६; ९, १८; -यम् त्रिभि ५,
७; गी १४, १४; १५; ये त्रिभि ३,
४-६; शि १, ३०; ३१; ३३; २,
३१; ४, ५४; ५, २६; गी १४, २;
-येन १योत १०४.

प्रलय-काल-रौद्र- -द्रं लां
२१४: ६.

प्रलय-महाप्रलय- -न्ती पित्र
१, १४.

प्रलय-भारुत्- -न्तं लां २१५:
१३.

प्रलया(य-आ)दिक- -कम्
(=कस्य) त्रिभि ३, २.

प्रलया(य-अन्त)>न्ता- -न्ताम्
गी १६, ११.

प्रलया(य-अ)वस्था- -स्थायाम्
सी ३५.

प्रलयो(य-उ)दय- -यौ महा ६,
२५; अक्ष ५, ४१; ४२.

प्र-लीन- -न्तः गी १४, १५; -न्तम्
गरु ६; ९; -नेषु गी ३, ४.

प्र/लुभ्

प्र-लोभ-
प्रलोभ-दण्ड- -ण्डम् मैत्रि ६,
२८.

प्रलू(त)>ता^१- -तानाम् गरु २३;
२४.

प्र/वच्, प्रोवाच सुं १, २, १३; तै ३,
१, १; छां ३, ११, ४; ८, ४, ४;
श्वे ६, २१; मना २, ७९५; त्रिभि
८, १४; १८; पाशु १, २३; ३२;
रुजा ३, १; ४; २; गरु १, २; ३; ३;
१०; कसु १८; सार २४२: १०;

a) 'प्रयाताः' इति मैत्रि १, ४। b) 'प्रयान्ति' इति मै १, ५। c) व्यु. १=तीर्थविशेष-। d) वैप १ यद्र.।
e) मा १७, २। f) श्र १०, ३७, १२। g) मा १३, २०। h) 'प्रदयते' इति अश्या। i) व्यु. १=राक्षसविशेष-।
j) पा. १ वनि. शोषः द.। k) व्यु. १। l) तैमा १०, १३, १।

स ३७८: २; रा ४२३: ५;
 मोचुः तुल ७१: २३; सार
 २३०: १९; प्रवक्ष्यन्ति क १,
 १, १९; छाग २४: ४; प्रवक्ष्ये
 गी ८, ११; प्रवक्ष्यामि क २, २,
 ६; वस् १; १योत १; २योत
 १, १; महा ५, १; योशि १, १० १;
 २, २; ५, १; १६: ४६; यो १, १९;
 जाद ६, २१; वरा १, २; ह ९;
 ग १; योरा १; सूता ३, १; ५,
 १; ६, १; शि १, ८; ६, १३३;
 २८४: ७, १; व ४३२: १९; गी
 ४, १६; ९, १; १३, १२; १४, १;
 प्र... बोचेत् मना १, ३१९;
 प्रबोचन् वृ २, ५, १७९^b; वा
 १०९^b; प्रबोचम् नापु ४, ५.
 प्रोष्यन्ते प्र ६, ५^a; ष्या ४५: ४९;
 ९३; योचूट: १३; १०८; सुद्र
 १, १; महा ५, २८; २९; रुजा
 १, ७; जाद १, १६; २, ७; १२;
 ४, २०; यो १, ६१; भव २, ७; ४,
 ६; वरा ४, ४; ५; गी १८, १९;
 प्रोष्यन्ते शु ३, १; शारी ३; ४.
 प्र-वक्त(व्य)ष्वा- -स्या सुवा १६.
 प्र-वक्ष्यन्- -क्ष्यन् तै १, ८, १.
 प्र-वचन्- -जम् तै १, ३, ३; -नेन
 क १, २, २३; सुं ३, २, ३; सुवा ९.
 प्रवचन-सत- -सेन सुवा ९.
 प्रो(प्र-उ)क्, क्ता- -क्ता: क १, २, ८;
 मना २, १२, ३९^d; मैत्रे २, १;
 शु ३, १८; ष्या २१; नाप ६,
 १३; योचू ट: २: १९; स्क १०;
 रार २, १; १०; ३१; ४९; ७०;
 १३; ९९; १०५; राज ५, ६;
 महा ४, १२; ५, १३; ६, ९;
 योशि १, १३२^c; ५, २९; अक्ष

४, ५८; ५, ७७; यो १, २०;
 जाद २, १३; ४, ३२; ३३; ६, १;
 २; १०, ४; पं ३६; वरा ४, ३६;
 योरा २; ह ३; सूता २, १८;
 नाउ १, ५९^d; शि १, १४; गु १७;
 भव २, ३२; गी ४, ३; ६, ३३;
 १०, ४०; १६, ६; -क्त्व १,
 १२; ऋचि १; मै ४, ४, ६; मैत्रि
 ६, ३४; रुजा ३, २; ५, ४; ६;
 मैत्रे २, ९; क्षु १३; ते ६, ३८;
 १योत १८; नाप ४, २३; ९,
 ११; योचू ३; ११२; रार २,
 ९४; रापु ४, ४०; सुद्र १, ४; पै
 ४, ५; महा २, १६; ३१; ५, १८;
 १३१; १३३; योशि १, ८१;
 १६८; २, ६; ५, ४; २७; १संन्या
 २, ६९; अक्ष १, २९; ४, ७३;
 त्रिता ५, २; क ३८; यो १,
 ४; रुजा १, २०; जाद १, १०;
 ४, ३३; ४१; ४४; ४५; पं १०;
 गोट ५८; ६१; ६८; रा ९;
 सूता १, ३४; शि १, २५; ४,
 ३८; ५, १५; ७, ८९; शु ६; १८;
 भव २, ५७; अवि १; गी ८, १;
 १३, ११; १७, १८; १८, ३७;
 -क्ता क १, ३, ९; वृष्ट ४, ८;
 १योत ११; ६६; योचू १०४;
 महा ५, ११; १६४; योशि १, ९;
 १संन्या २, १०१; अक्ष १,
 ४९; त्रिता ४, ३३; जाद १, ८;
 १५; १८; ४, ९; १६; १७; २२;
 ३६; ३८; ४३; ८, ३; रार २,
 ९५; ६ १९; ४३; गु ३; वरा ४,
 ७; ५, ७४; सु २, २, ६१; ६२;
 गी ३, ३; -क्ता: मै ४, ५; अना
 १०; ऋचि ३; महा ५, २०; ६,

३; जाद २, २; वरा १, ९; ५,
 १४; १प्र ३१: ३; नापु ५, ३९;
 शि ७, १३६; -कानाम् गोट ६२;
 -क्तामि ते १, १६; गी १८, १३.
 प्रो(प्र-उ)क्ववत्- -यान् गी ४, १; ४.
 प्रो(प्र-उ)ष्यमान- -जम् गी १८, २९.
 प्र-वृष्- -गम् भव ३, १७.
 प्र-वृत्- -वता तै १, ४, ३.
 प्रवृत्ति(र्ति^b)- -तिम्(र्तिम्^b) वा १३.
 प्र/वद्, > यदि, प्रवदन्ति षे ३, २१^a;
 मना १, १५९^d; रार ५, १७; राज
 ३, १; क ६; रुजा २, ७; गोट
 ५९; विद्या ४; कधु ३, ६; व ३
 १, २१; गी २, ४२; ५, ४; प्रवदेत्
 सुं १, १, २; प्रवदेत् रापु ३, २.
 प्र-वदत्- -दताम् गी १०, ३२.
 प्रो(प्र-उ)दित- -तः १संन्या २, ३१.
 प्र-चर्ग्य- प्र/वृज् द.
 प्र-चर्तक- , प्र-वर्तन- प्र/वृत् द.
 प्र-चर्षित- प्र/वृष् द.
 प्र/वल्ह
 प्र-वह्वित- -तानि २प्र ३६: ५.
 प्र/वस्(निवासे), प्रोवास वां ४, ४, ५.
 प्र-वास- -सः नाप ४, ६.
 प्रवास-गमना(न-आ)गति-
 -तौ शि ७, ९.
 *प्र-वासा-
 *प्रवासां/क्, प्रवासांचके छां
 ४, १०, २.
 प्रो(प्र-उ)ष्य छां ५, १, ८-११; वृ ६,
 १, ८-१२; कौ २, ११.
 प्र/वह्(गती), प्रवहति यो १, ७२.
 प्र-वाह- -हस्य वरा ५, ४१; -हेउ
 त्रिवि ६, २३; -है: त्रिवि ६, १^a;
 २२; सि २, ९; ३, ४; ४, ५; ५,
 १७; ६, १२.
 प्रवाह-त्स(>:) त्रिवि ३, २१^b.

a) पा.१ यनि. शोषः द. (दु. मा ३२, ९)। b) ऋ १, ११७, २२। c) ऋ ३, ५४, ५। d) तैत्र्या १०, १०, ३। e) 'स्वाद्' इति अज्या.। f) गस.। वैप १ यद.। g) वैप १ यद.। h) पा.१ <प्र/वृत् इति कृत्वा यनि. शोषः? (वेदु. बादी. यनि. <प्र/वृत् इतीव?)। i) तैत्र्या १०, १, १५। j) प्रा० इति मुपा. यनि. शोषः द.। k) 'तानि' इति मुपा. यनि. शोषः द. (दु. अज्या. संति.)।

प्र-वाहण^६—-णः छां १,८,१;२;८;
५,३,१; -णम् वृ ६,२,१; -णस्य
वृ ६,२,४.

प्रौ(प्र-ऊ)-

प्रौषा- -ढाअण२,१३,५,८६.

प्रौढ-हीन- -नः तै ६,१४.

प्र-वाद्य- -यानाम् योचू ११५.

१प्रचाल^७- -लः पा ९,५.

२प्रचाल^{११}- -लम् सिधि ३८२:२१.

प्रचाल-मौक्तिक-स्फटिक-वाह्य-
रजता(त-अ)ष्टापद-चन्दन-पुत्र-
जीविका(क-अ)ञ्ज-रुद्राक्ष-
-क्षाः अञ् २°.

प्रचाला(ल-अ)ङ्कुर-सदृश- -शाम्
सौ ३,१.

प्रचाला(ल-अ)ङ्कुर-संनिभ- -भम्
योर ८.

प्र-वि/चर, > चारि

प्रवि-चार-

प्रविचार-तस(>) शि७,११६.

प्रविचार्ये योशि १,५४; महा २,२.

प्रविचार्ये- -यम् महा ४,२१; योशि
१,१५.

प्र-वि/चिन्त, प्रविचिन्त्यताम् वरा
२,६४.

प्र-वि/जुम्भ, प्रविजुम्भते अण५,१०

प्र-वि/तन्, प्रवितन्त्यते महा ४,४७;
४९.

प्रवि-तत- -तम् ध्या ९३.

प्रवितत-मुल्ल-पूर्ण-संविद्-
-वित्त भाषो २.

प्र/यिद्(शाने), > वेदि, प्रवेद नापू ४,
१२५°.

प्रवेदयते तै १,५,१; प्रवेदयन्ति
सुं १,२,९.

प्र-विद्वय- -द्वान् मवा ९५°.

प्र-वि/नश(अदरीने), प्रविनश्यति

महा ४,४४; प्रविनश्यन्ति त्रिवि
१,२; ५,७; ८,१८.

प्र-वि/भञ्ज

प्रवि-भक्त- -क्तः विद्या २; -क्तम् गी
११,१३; -क्तानि गी १८,४१.

प्रवि-भज्य प्र२,३; ३,१; मै २,६; ९.

प्र-वि/भा, प्रविभाति त्रिवि ५,१०;

प्रविभान्ति त्रिवि ५,१०; ११.

प्र-वि/ली, > लापि, प्रविलीयते राठ
५,२३; अक्षि ३३; यो १,८०;

शां १,७,२५; पं २०; वरा ४,
१३; सु २,२,१७; गी ४,२३;

प्रविलीयन्ति सुं ३,२,२.

प्रवि-लापन- -नेन वरा २,६५.

प्रवि-लापित- -ते पै ३,१; अध्या
३९.

प्रवि-लाप्य पं २३; पप ४१८:२१;
२२.

प्र-वि/विच

प्रवि-विक- -क्तम् गी १,४.

प्रविविक्त-भुञ्ज- -भुञ्ज मां ४;

गी १,३; वृष ४,५; योचू ७२;

राठ ३,१; वठ १,७; ५,३४.

प्रविविक्ता(क-आ)हार-

प्रविविक्ताहार-तर- -रः वृ
४,२,३.

प्र/विश, > वेदि, प्रविश्यति यो २,
४२°.

प्रविशति क १,१,७; प्र १,६;

छां १,४,५; कौ १,५; वृजा ८,
६; वृषू ५,२०; वृठ ७,११;

त्रिवि ८,५; ह १२; वठ ५,२८;

पिम ३,४; प्रविशन्ति वृ ४,४,
१०५°; गी ४,४९; ५,४; आरू ५;

वृजा ८, ६; त्रिवि ८, ५; योशि
६,३४; १अव ७; ई ९; १२;

अव १,४३; गी २,७०; प्रविश

तै १, ४, ३; प्रविशत ऐ २, ३;

प्रविशानि तै १, ४, ३; प्रविशाय

ऐ २, ४; तै २, ६, १५°; मै २, ६;

मैत्रि २, ६; अशि १, ३; जाद

४, ४४; प्रविशान् ऐ २, ४; छां

१, ४, २; ३; प्रविशोत् मैत्रे १, ४;

१२; १योट ८२; ८३; योशि

१, ८६; १२२; ६, ७४; यो ३,
९; १२°.

प्रविवेश छां ५, १, ८-११; वृ ६,
१, ८-१२; कौ २, १४; त्रिवि

८, ५.

प्रवेशय व ४६४: १६५; प्र-

वेशय-प्रवेशय व ४३१: २२°;
२३.

प्र-विशद्- -शस्त्सु पितृ ३, ४.

प्र-विश्य क २, १, ६; ७; छां १, ४,
४, ५; कौ २, १२; १३; वृठ ९,
८; नि १५; नाप ४, ३८; त्रिवि

६, २३; २४; पै १, ३१; २, २५;
२७; २९; ४४; योशि ६, ३४°;

पाशु २, १२; वरा ४, १; प्रविश्य-

प्रविश्य व ४५७: १५.

प्र-विष्ट, छा- -ष्टः क २, २, ९; १०;

वृ १, ४, ७; ४, ४, १३; वृजा २,
१; मैत्रि ५, २; जाद ४, ४३;

गोपू १६; वा २, ४; सार २२७:
१०; २९०: २१; -ष्टम् अद्वै ७७;

-ष्टस्य १योट ९४; -ष्टा ध्या ७९;

योचू ५२; योशि ५, ४०; -ष्टा;

-ष्टान् मैत्रि ६, १०; -ष्टे यो २, ४२;

-ष्टी क १, ३, १; प्रष्ट १, २, ११.

प्रविष्ट-वित्त- -त्तः सार २९०:
१७; २२.

प्र-वेश- -शाम् कर १; कभ्र २, ३;

-वेशे जा ५; या २, १; -वेशे योशि
६, ३६.

*प्रवेशया-

*प्रवेशायाम्(म्/अ)स् (भुवि),

प्रवेशायामास महा २, २३; २४.

प्रवेशयिरवा* नाप ४, ३८.

प्रवेश्युम् पै २, ३९; कुं २; गो १११,
५४.

प्र-वि/स्त्व

प्रविस्तार- रः, -राए शि २, ८.

प्र/वृ(वरणे)

प्र-वर- रः सार २५२: १०.

प्र-वरण- गाय मै ५, ७.

प्रवर्णीय- यः मैत्रि ६, ७^०.

प्र/वृ(आच्छादने)

प्र-वार^{१०}- -राणाम् वृ ६, २, ७.

प्र/वृज्

प्र-वर्ष^{११}- -र्वः मना २, ८०^{११}.

प्र/वृत्, > वर्धि, प्रवर्धते गो ४, १९;

मैत्रि ६, २८; कौ ४, ६; आरु

३; नाद ४७; ऋवि ४४; नाप ४,

३८; त्रिमा २, १९; ११७; महा

४, १३; योशि १, ६२; ११४;

११६; १५८; १७०^१; २, १२;

५, ६; ७; ३०; ३१; पप ४१८:

३०; अन्न ४, ८८; ५, २७; कठ

३१; ३२; रूढ ८; या २, २३;

घरा ४, ४३; सर ३, ९; सु २, २,

२२; शि १, ३७; सांस् २, १८;

सांका २४; २५; ५२; ५८^१; गो

५, १४; १०, ८; प्रवर्तन्ते ना १;

ससा ३; ऋवि ५८; त्रिवि २,

१६; योशि १, ३६; १२७; १४७;

पाशु २, १०; ह ९; गार ४०५;

११; गो १६, १०; १७, २४;

प्रवर्तताम् १ अत्र २२.

प्रवर्तयति सं १२; प्रवर्तयेद् शि

४, २४.

प्रवर्तक- कः श्वे ३, १२; -कम्

१ आ ४; भव ५, २; -कस्य सांस्

३, ६९; -काः त्रिमा २, १३.

प्रवर्तक-व- -स्वम् पाशु २,

१०.

प्र-वर्तन- -न्म् सांस् ३, ५.

प्र-वर्तित- -तम् गो ३, १६.

प्र-वृत्त- -त्तः छां ५, १३, २^०; मं २,

४, २; गो ११, ३२; -त्तम् भव

५, ६; ७; -त्ताः भव १, ५५; -त्ते

श्वे २, १२; गो १, २०.

प्र-वृत्ति- -त्तिः त्रिवि ५, ४^१; १ संन्या

२, १०१; सार २२७: ११;

सांका ५७^१; योश् १, ३५; गो

१४, १२; १५, ४; १८, ४६;

-त्तिम् १ संन्या २, १३^१; गो ११,

३१; १४, २२; १६, ७; १८, ३०;

-त्तेः सांस् १, १४४; सांका १५;

१७; वृत् १, ३, ३७; २, २, २;

-त्तो सां १, १.

प्रवृत्ति-भेद- -दे योस् ४, ५.

प्रवृत्ति-मार्गा(र्ग-आ)सक- -कः

मं २, ४, २.

प्रवृत्ति-लक्षण- -णम् नाप ३,

१५.

प्रवृत्त्या(ति-आ)लोक-न्यास-

-साए योस् ३, २६.

प्र/वृप्, > वर्धि, प्रवर्धते वरा ५, ५१;

५२; सौ २, १.

प्र-वर्धित- -तम् शि ७, ८४.

प्र-वृद्ध- -द्: मैत्रि ३, १४; गो ११,

३२; श्वे गो १४, १४.

प्र-वृद्धि- -द्धयै पा ९, १.

प्र/वृप्, प्रवर्धति छां ५, १०, ६.

मा^{११}-वृप्- -वृद् सार २६९:

१४.

प्रवृद्-काल-मारम्भ- -म्भे

त्रिवि ५, २.

प्रवृद्(द्)ल्-लीला^{१०}- -लाम्

सार २६९: २०; -लायाः सार

२६९: १३.

प्र/वृह्, प्रावृह्व छां ४, १७, १-३;

प्रवृह्व क २, ३, १७.

प्र-वृह् क १, २, १३.

प्र/वृ, प्रवयति कौ २, ६.

प्रो(प्र-उ)व, ता- -ताः वृ ३, ६, १;

८, ७; ११; मना १, ३५^१; वृत्८, १^१; योच् १२; -वम् छां २,

११-१६, १; २: १९, १; २;

२१, १; २; ५, २४, ३; वृ

३, ६, १; ८, ३; ४; ६; ७; मै

५, ३; मैत्रि ३, ३; मना २, ७९^१; वृ

२, ३; वृप् २, १०; मन्त्रि १७; ते ३,

५४; १ योत् १३६; नाप ३, ७९;

त्रिमा २, ४; छां २, १; पत्र ३,

३; पारा १८; कालि ४०२: १७;

गु ८२; गुपो ४२१: ८; पी ४२२:

२१; ह्यो ६; २२; वृ १७; गो

७, ७; -ताः छां २, १७-१८,

१; २; वृ ३, ६, १^१; सुवा१०^१; गो १७.

प्रवेदा- प्र/विश्व द.

प्र/व्यथ्

प्र-व्यथित- -तम् गो ११, २०; ४५;

-ताः गो ११, २३.

प्रव्यथिता(त-आ)न्तराम्-

-त्सा गो ११, २४.

प्र/मञ्जु, मज्जन्ति वृ ४, ४, २२; नाप

३, १५; प्रवजेत् जा ४^१; नाप३, १२; ७७^१; १ संन्या १, १;पप ४१८: ४^१; ६; या १, १^१; कथु

१, १; भव १, २.

प्रवज्जत् प्र ६, १; छां ८, १०, १;

११, १; कौ ४, १८; प्रवज्जत्तुः

छां ८, ८, ३; प्रावज्जीः छां ८,

९, २; ११, २.

प्र-मज्जत्- -ज्जत् नाप ३, १३; -ज्जन्तम्

सु ३, २०.

ब) पा ७, १, २८। ब) चर^० इति संदि.। ८) पा ३, ३, ५५। d) तैमा १०, ६५, १। e) तः इति निसा.।।
 f) तम् इति अज्या.। g) पा ६, ३, ११६। h) संधिरार्थः द.। i) मा ३२, ८। j) तैमा १०, ६३, १।

f) तम् इति अज्या.। g) पा ६, ३, ११६। h) संधिरार्थः द.। i) मा ३२, ८। j) तैमा १०, ६३, १।

प्र-मजन- -नम् प ४, ५.
 प्र-मजित- -न्ताः शि ५, २२.
 प्र-मजिष्यत्- -ष्यन् वृ ४, ५, २.
 प्र-मज्य नाप ५, ३६.
 प्र-मज्या-
 प्रमज्या-(ज्या>)ज्य- -ज्यम्
 मैत्रि ६, २८.
 प्र-मजिन्- -जिनः वृ ४, ५, २२.
 प्र/शंस्, >शंसि, प्रशंसन्ति वृ १, ५,
 १६; ३, ८, ९; मना २, ७८^४; इ
 १५: २१.
 प्रशांस वृ ३, २, २; प्रशांससुः
 वृ ३, २, १३.
 प्रशास्यते गौ ३, १३; त्रिवि ८,
 ११; शि ५, ६.
 प्रशांसयेत् सू ३१.
 प्र-शांसा- -सया सुवा ९; -सा वृ १,
 ५, २; सां सू १, १५.
 प्रशांसा-काम- -माः छां २, १, ३.
 प्र-शास्त, स्ता- -स्ता नाप ५, ३५;
 -स्ताम् हे १; -स्ते नाप ५, ८^०;
 गी १७, २६; -स्तैः शि ४, ४९.
 प्रशास्त-गोमय- -यम् वृजा ३, १.
 प्र-शास्ति- -स्तिम् सार २, १०^६.
 प्र/शाम्, >शाम्, प्रशाम्यति त्रिभा
 २, १६३; २अव ३३८: ४.
 प्र-शाम- -भम् महा २, १५; ३०;
 अक्ष २, ३२; अक्षि ३१; वरा
 ४, १२.
 प्र-शान्त- -न्तः प्रवि १०१; अष्या
 ६८; शा १८; -न्तम् कै १, ६; ७;
 सं १, ४, १; शां २, १; महा ४,
 ९^१; -न्तस्य अना १५; शि ७,
 १३०; गी ६, ७; -न्ताः सुं ३, २,
 ५; सार २८३: १०; -न्ताय सिधि
 ३८३: ११; -न्ते महा ४, ५४.

प्रशान्त-कलना-रन्म- -रन्मम्
 महा ६, ७२.
 प्रशान्त-धन-वास(ना>)न-
 -नम् अक्ष ५, ४८.
 प्रशान्त-चापल- -लम् अक्ष ५,
 ६०.
 प्रशान्त-चित्त- -त्ताय सुं १, २,
 १३.
 प्रशान्त-धी- -धीः अक्ष ५,
 ११४; महा ६, ७.
 प्रशान्त-मनस- -नसम् गी ६,
 २७.
 प्रशान्त-वाहिन्-
 प्रशान्तवाहि-ता- -ता योस्
 ३, १०.
 प्रशान्त-वृत्तिक- -कम् सु २, २,
 ५४.
 प्रशान्त-सकले[?लै(ल-ए)]-
 ष(णा>)ण- -णः महा ६, ८२.
 प्रशान्त-सर्व-संकरुप- -रुपम्
 अक्ष ५, २३.
 प्रशान्ता(न्त-श्च)खिल-भूत्-
 भीति- -तिः महा ६, ४०.
 प्रशान्ता(न्त-श्च)भि- -भौ नाप
 ६, ६.
 प्रशान्ता(न्त-श्च)भ्रम्- -भ्रम् ता ते
 ४, ३३; नाप ६, २५; ३६; अक्ष
 ५, ९; गी ६, १४.
 प्र-शाम्य(त>)न्ती- -न्त्याम् शां
 १, ७, ३२.
 प्र-शाखा- -ख्या मैत्रि ७, ११.
 प्र/शास्, प्रशास्ति वृ ५, ६, १; प्र-
 शाष्वम् २प्र ३६: १३.
 प्र-शासन- -नम् छां ५, ३, ७; -नात्
 प्रस् १, ३, ११; -ने वृ ३, ८, ९.
 प्र-शासितृ- -नारम् भव २, ४३.

प्र-शासृ- -स्ता सुवा ५.
 प्र-शाष्- -ऽशिषम् वृ २, १६;
 २शिसं ३४.
 १-२प्रश्न- /प्रच्छ् द्र.
 ३प्रश्न^३-
 प्रा(रन>)शी^१-
 प्राकी-पुत्र- -प्रः; -प्राव वृ ६, ५, २
 प्र/श्रि
 प्र-श्रय- -श्रेण सार २४३: १४.
 प्रश्रया(य-श्च)वन(त>)ता- -न्ता
 सार २२०: २२; २४३: ४; २६८:
 २०; -ताः सार २३४: १५;
 २४२: ९.
 प्र/श्वस्
 प्र-श्वसितव्य- -व्यम् तै १, ११, ३.
 प्र-सं/कुच्
 प्रसं-कोच- -चे त्रि १५.
 प्र-सं/ख्या
 प्रसं-ख्यान- -न्ने योस् ४, २८.
 प्र/सब्ज्, प्रसाह्क्षीः छां ४, १, २.
 प्रसज्यते गौ ४, १३; ते ५, २८;
 प्रसज्येरत् नाप ४, १६.
 प्र-सक्त- -क्ताः गी १६, १६.
 प्र-सङ्ग- -ङ्गः ते ५, १५; वरा २, ७३;
 -ङ्गाव् शि ६, १८५; -ङ्गेन नाप ३,
 ३६; शि ६, १९३; गी १८, ३४.
 प्र-सत्
 प्रसत्-वल्- -वान् वा २५.
 प्र/सद्, >सीद्, सादि, प्रसीदति क
 २, ३, १३; रापू १, ११; १३; राउ
 ५, २८; महा ५, ६६; अक्षि १८;
 रुजा २, १५; सूता ५, २; वृष
 ८५: ९; शि ७, ७९; भव १, ५१;
 प्रसीदति यो २, २३; भव ४,
 १८; प्रसीदत् श २५; प्रसीद
 वृ ९, १९; द्यु १, ९; गोपु ४३^१;

a) ०^४ इति सात. । b) तेषां १०, ६२, १ । c) 'प्रशास्तवर्णानाम्' इति अख्या. । d) अ २, ४१, १६ ।
 e) पा. १ वनि. दोषः द्र. (द्र. अख्या.) । f) ०^५ इति अख्या. । g) अ १०, १२१, २ । h) द्यु. १ = गोत्रप्रवर्तक-
 ऋषिभिरोप- । i) भाप. १ अर्थः द्यु. च । (द्र. वैश्व सत्यन्- इत्यत्र प्रहृत्परंसाः) । j) वैतु. बाटी. = साक्षिन्-
 वे. = प्रसति- ।

सार २९२:२१; गी ११, २५; ३१, ४५.
 प्रसादयति सार - २८५: ४;
 प्रसादये गी ११, ४४; प्रसादयेव
 योशि ६, ७२.
 प्र-सन्न, आ- - - सन्न अक्ष ५; लां २१५:
 १५; -सन् मैत्रे ३, १४; नाप ८, १०;
 द ८; रापू ५, १; राव ३, २; सार
 २३०: १७; २३६: १६; २८५:
 १८; वच ३, ३८; ४, ४३;
 -सन्म त्रिवि १, १; पं६; योशि १,
 ७८; लां २१४: २; -सन्ना या सार
 २६१: १८; -सन्ना सी ६; राधा
 ३, १५; सार २७६: ८; व ४२७:
 ६; -सन्ना: सार २४२: १८; -सन्नाम्
 व ४२६: १३; -सन्नायाम् महा ५,
 १०८; -सन्नेन सार २२७: २१;
 गी ११, ४७; -सन्ने: पा २, ५.
 प्रसन्न-चेतस- -तस: गी २, ६५.
 प्रसन्न-मयुर- -र: अक्ष २, ३१.
 प्रसन्न-मनस- -नसम् शि ७, ४.
 प्रसन्न-लोच(न>)ना- -ना सी
 ३७.
 प्रसन्न-वदन- -न: रापू ४, ८;
 राव ५, २७; शां १, ७, १४; -नम्
 रार २, ४७; ११.
 प्रसन्न-वदन(न-अ)म्बुज-
 -जम् वपू २, २.
 प्रसन्न-स्वभाव- -वेन शां १, २.
 प्रसन्ना(अ-आ)स्मन्- -त्सा मै ४,
 ४, ४; मैत्रि ६, २०; ३४; मैत्रे १,
 ४, ६; तै ४, ६; रापू ४, ३०; वरा
 ५, ५५; शि १, ४; गी १८, ५४.
 प्रसन्ना(अ-आ)नन- -न: पित्र १,
 ५; -नम् द १४.
 प्र-सन्नवत्- -वान् वृजा ६, १.

प्र-साद- -द: नाप ४, ११; -दम्
 श १७; वरा ५, ७०; लां २१५:
 १५; सार २२६: ३; गी २, ६४;
 -दाव क १, २, २०५; खे ३,
 २०५; मना २, १२, १५; त्रिवि
 १; नाप ९, १३; श १८; योशि १, ७;
 नाउ १, ८; पा ९, ३५; शि ४, ५४; हे ४; -दे गी २,
 ६५; -देन मैत्रे ४, ४; मैत्रि ६, २०;
 ३४; मैत्रे १, ४, ६; वरा ५, ४२.
 प्रसाद-कृत्- -कृत् भव १, ५१.
 प्रसाद-तस(>) योशि ३, १०;
 स्क १३; दे २१; सिशि ३८०: ४.
 प्रसाद-संपन्न- -सन्: शु १, ६.
 प्र-सादन- -नाव शि ७, १०.
 प्र-सादिन्- -दिन: कठ ३०.
 प्र-साद्य वृच ४, १.
 प्र-सेदिवस-
 प्रसेदुपी- -पी सार २८६: ११.
 प्रा-साद- -दम् शि २, १; -दस्य
 शि २, १३.
 प्रासाद-स्य- -स्या: शि ७, १२२.
 प्रासादा(द-अ)र्ध- -र्धेन शि २,
 १२.
 प्रसमम्^१ गी २, ६०; ११, ४१.
 प्र-समी(म्/ई)क्ष्
 प्रसमी(म्-ई)क्ष्य श्वे २, १४; शि १,
 ६; भव ४, १६.
 प्रसरण- , प्रसरत्- प्र/सद्
 प्र/साद्
 प्र-सहत्- -हत् मन्त्रि ७.
 प्र-सह्य या २, २०.
 प्र-सासहि- -हि: वा ४; -हिस्य
 आर्थे ९: १७.
 प्र/साध् > साधि, प्रसाधयेव शि
 ७, १२०.
 प्र-साधन^२ - -न: इ १२: ११.

प्र-साधन^१ - -नम् सूता ५, १; शि
 ७, ३४१.
 प्रसार- , प्रसारित- , प्रसार्ये प्र/सद् द.
 प्र/सिच्य
 प्र-सिच्य कौ २, ७.
 प्र/सिच्य प्रसिच्यति गी ४, १७; यो
 २, १८; प्रसिच्येत् गी ३, ८.
 प्र-सिद्ध, द्वा- -द्धम् मैत्रि ६, १०;
 योशि १, १४५; त्रिवि २, १; सार
 २७६: १५; -द्धस्य त्रिवि २,
 १२; -द्धा अता ५; महा ५, ८६;
 -द्धेन गौ २, ५.
 प्रसिद्ध-ता- -तया त्रिवि १, २.
 प्रसिद्धा(द-आ)धिक्य- -न्यम्
 सांस ६, ३८.
 प्रसिद्धो(द-उ)पदेश- -द्वाव् भम्
 १, २, १.
 प्र-सिद्धि- -द्धे: मत् १, ३, १७.
 प्र/सु(अभिषेवे)
 प्र-सुत्- -त: वृ २, १, ३; -तम् छां
 ५, १२, १.
 प्रसुत्- प्र/स्वप् द.
 प्र-सुर- -र: पा ८, ४.
 प्र/सु(प्रेरणे), प्रसौति तै १, ८, १.
 प्रसुवाति श्वे २, ३५.
 प्र/सू(प्रसवे), प्रसवति ए ७; त्रिता
 १, २०; २२.
 प्रसूयते पै ३, १; अथ्या ४०.
 प्रासुवत् मै २, ८; मैत्रि २, ६.
 प्रसविष्यच्चम् गी ३, १०.
 प्र-सव- -वम् गौ १, ७; -वेन श्वे २,
 ७; या २, १५.
 प्रसव-धर्म-
 प्रसवधर्मिन्- -र्मि सांका ११.
 प्र-सवितृ- -ता वृपू २, ११; -त्रे
 वपू १, ३.
 प्र-सूत, ता- -तम् श्वे ५, २; -ता
 मना १, १५; -ताव् कौ १, २.

a) 'साध' इति श्रद्धा. । b) 'प्रणवम्' इति श्रद्धा. । c) तु. गपू. इ. ४१९। d) तैआ १०, १०, १ । e) पावा ६, ३, १२२ । f) व्यु. इ. =अव्य. । व. त्रिवि. द. । g) पावा ३, २, १७१ । h) कर्त्तरि कृत् । i) भावे कृत् । j) मा ११, ३ । k) 'मासवत्' इति मिला. यनि. श्लोच: द. (तु. मैत्रि २, ६; अथ्या. 'मासवत्' इति) । l) तैआ ३, १०, १, २ । m) तैआ १०, १, १ ।

प्र-सृति-ति: मैत्रि २,६; ६,१०;
मना१,१९; ए३; -तिम् गौ१,८.
प्र/सृ, > सारि
प्र-सरण- -ण: वार्षे २ : १३.
प्र-सरत्- -रति अक्ष ४,९.
प्र-सार- -र: वपू २,५.
प्र-सारित, ता- -त: १योट ११४; पै
१,९; -त्सम् योचू ६६१^b; -त्सा सार
२६९; १४; -त्सा: सार २३७; १२.
प्रसारित-रता- -त्सा: सार २३७:
६.
प्र-सार्थे १योट ११२; त्रिवा २,४४;
५०; शां १,३,५; ७,४३; यो १,
६६.
प्र-सृत्, सा- -त्सम् सुं २,२, ११; पा
८,७; -त्सा शां २,१; खे ४,१८;
सार २६९: २२; गु ६१; गी
१५,४; -त्सा: पा८,१०; गी १५,२.
प्र-सृति-
प्रसृति-दिक्-काल-बाह्य-
-ह्यम् महा ४,४२.
प्र/सृप्, प्रसर्पति योशि ५,२३°.
प्रसेदिवस्- प्र/सृद् द्र.
प्रस्कण्व^{१०} - -ण्व: सूता १,२८.
प्र/स्कन्द, प्रस्कन्दन्ति प्र १,१३.
प्र/स्वल्ल
प्र-स्वल्ल(त्)>न्ती- -न्तीम् पा
६, ६.
प्र/स्तरम्
प्र-स्तरण- -ण्वम् वृ ६,३,४.
प्र/स्तु, ९^{१०} प्र...स्त्वते वृ २, १३;
नापू ४,१०.
प्रसृतीति, प्रस्तुपाव वृ १, ३,
२८.

प्रस्तोष्यसि छां १,१०,९; ११,
४; प्रास्तोष्य: छां १,११,५.
प्र-स्ताव^{११} - -व: छां २,२, १; २;
३-८,१; ९,३; १०-२१,१; -वम्
छां १,१०,९; ११,४,५.
प्रस्ताव-भाजिन्- -जिन: छां २,
९,३.
प्र-स्तु(त)>ता- -त्ता: मै ५, ५१^१;
मैत्रि ६, ५.
प्र-स्तुति-
प्रस्तुति-काम- -मा: छां २,९,३.
प्र-स्तोतृ^{१२} - -०त: छां १, १०, ९;
११,४; -त्ता छां १,११,४; वृ १,
३, २८; प्रा ३, १; ४, १; -तारम्
छां १,१०,८.
प्र/स्तृ
प्र-स्तर- -र: सी ४.
प्र-स्तार-
प्रस्तार-पङ्क्ति^{१३} - -ङ्क्ति: सौ
१, १.
प्र/स्था, > तिष्
प्र-तिष्ठमान- -ने प्र २,४^१.
प्र-स्थ^{१४} - -स्थो गर्भ ५.
प्र-स्थित- -त: शि ६, ११३.
प्र/स्पन्द, प्रस्पन्दते अक्ष ४,४२.
प्र/स्फुर, प्रस्फुर-प्रस्फुर वपं ३१२:
४; व ४५८: १.
प्र-स्फुरव- -न्तम् गौ ५९^१.
प्र/स्पन्द
प्र-स्पन्दित्- -न्दि वृ ३,९,२८,२.
प्र/स्वयम्, प्रस्वयिति वृ ४,३,९^१.
प्र-सुप्त-
प्रसुप्ता- -सा प्या ६६; योचू
३८; शां १,७,३७; गौ १,६५.

प्रसुप्त-तनु-विच्छिन्नो(न-उ)-
दात- -राणाम् योचू २,४.
प्र/स्विद्
प्र-स्वेद- -द: १योट ५१; जाद६,
४३.
प्रस्वेद-जनक- -क: जाद६, १४.
प्रस्वेद-जनन- -न्म् त्रिवा २,
१०४.
प्र/हृस्
प्र-हृस्त्- -सन् गौ २,१०.
प्र/ह्ला(त्यागे), प्रजहाति वंरा ४, २८;
गी २, ५५; प्रजहिहि गौ ३, ४१^{१२}.
प्रहास्यसि गौ २, ३९; प्रहासी:
ऐ कौ नाद आबो निर्वा सुं अक्ष
त्रि सौ सर ब शां ९^१.
प्र/हि, प्रहिणोति खे ६, १८; रा २;
प्रहिणोतु पा ८, ४; प्राहिण्वत्
पा १, ३; प्रहिणुपाव कौ २, ३.
प्रजिघाय कौ १, १९^{१३}.
प्र-हित- -तानि रापू ३, १.
प्र/हु, प्र...हुहति वृ १, ५, २.
प्र-हुत^{१४} - -त्सम् वृ १, ५, २.
प्र/हृ, प्रहरन्ति इ १३: २; पा ९, १;
प्रहर-प्रहर व ४३५: १०.
प्र/हृप्, प्रहृष्यति गौ ११, ३६; प्र-
हृष्येत् गौ ५, २०.
प्र/ह्लाद्
प्र-ह्लाद^{१५} - -द: गौ १०, ३०.
प्रह्लादा(द-आ)दि- -दीन् कौ
३, १^{१०}.
प्रह्लादा(द-आ)ष- -या: रा
१, २.
प्र-ह्लादि(त्)>नी^{१०} - -नी गार
४०७: १७.

a) तीमा १०,१,१। b) °स इति निता. यनि. शोष: (तु. अज्या.)। c) °ते इति अज्या.। d) म्यु: =श्रुतिविशेष-। e) श्रु १,१५४,२। f) 'प्रस्तोवा' इति मुग. यनि. सु-शोष: (तु. नाउ.)। g) =श्रुतिविशेष-। h) =हन्नेविशेष-। i) =परिमाणविशेष-। j) 'प्रस्फुरव' इति भान.। k) तु. शं. प्रयु.। यदा प्र/हृत् > प्रजहि इति श्रवा 'हि' इति श्रवण् पदम् (तु. गौ ३, ४३)। l) ऐमा २, ७, १। m) शांसा ३, १ (तु. वैप २, ६९७ टि.)। n) 'प्रह्लादि->दीन्' इति निता., अज्या; 'प्रह्लादीप->याद्' इति भान.; 'प्रह्लादीया->याम्' इति शांसा. [५, १ (वैत. संटि. पा.)] मुग. यनि. सु-शोषा: (तु. भान. संटि.)। o) =दीन्विशेष-।

प्र/हृ प्र-हृ- -हृ: रा २, ४६. प्राकट्य- प्र/कट् द. प्राकान्य- प्र/कम् द. प्राकार- प्र/कृ द. प्राकाश्य- प्र/काश् द. प्राकृत- प्राकृतिक- प्र/कृ द. प्राचुर्य- प्रचुर- द. प्राजापत्य- प्र/जम् द. १-२प्राक्ष- प्र/शा द. प्रा(प्र/अ)ञ्च् प्रा(प्र-अ)च्,ञ्च्- प्राक् क २, ३, ४; छां २, ९, ६; ७; ५, ३, ७; गौ ३, १; १४; आह ५; मैत्रि ५, २; ६, १५; १७; वृजा ४, ९; त्रिजा २, ९२; राप् ३, २; ४, ६५; शां १, ७, १; महा ५, १२; अक्षि ४५; अप्या ४०; भ २, २; वरा २, ५१; शि ६, २४८; २५१; भव २, ५८; वठ ६, ४७; गौ ५, २३; प्राह् छां ३, १३, १; ४, ६-८, १; ६, १४, १; १योत १४१; मा ६; प्राब्ज: छां ३, १, ३; वृ ४, २, ४; अशि १, ४; ४, १७; वट् ३, ६; ९; प्राब्जम् वृ ६, ४, २. प्राची- -ची छां ३, १५, २; ४, ५, २; वृ १, २, ३; ४, २, ४; -चीम् प्र १, ६; १संन्या १, १; शा १८; २प्र ३२: ११; कशु १, १; च्य: छां २, ४, १; ३, १, २; ६, १०, १; वृ ३, ८, ९; -च्यम् वृ ३, ९, २०; वृजा ३, १८; भ २, १८; नाप ४, ३८; व ४३८: २१; ४४४: २; ४४४: १५ प्राच्या(ची-आ)दि- -ची पो ४२२: ७. प्राच्यादि-दिन्-	-दिवा: मैत्रि ६, १७. प्राक्-कर्म-निर्मित- -तम् अक्षि २२. प्राक्-कर्म-फल-पाक- -केन पै २, ४९. प्राक्-तन- -न: मु २, २, ५; -नम् अक्षि २५; शि ७, १०९; १११; -नानि वरा ३, २२. प्राक्-परोक्ष- -क्षम् पै ३, १. प्राक्-पुण्य-कर्म-वश- -शाव् नाप ५, १. प्राक्-पुण्य-कर्म-विशेष- -पाव् १संन्या २, १३. प्राक्-प्रणीत- -तम् १संन्या २, ६५; ६७. प्राक्-प्रवण- -णे वठ ६, ४७. प्राक्-शिरस्- -रा: वृ ६, ३, ६. प्राग्-गुण- -गेन राप् ३, २. प्राग्-दल- -ले नाप ६, १. प्राह्-मुख- -स्त्र: शां १, ५; जाद ५, ५ ^b ; आच २; २प्र ३३: १६; सूता १, २४; शि ७, ६३; -खम् शि ४, ५; -खा: इ १५: ९. प्राचीन ^o - प्राचीन-योग ^{ld} - प्राचीनयोग्य ^o - -ोग्य तै १, ६, २; छां ५, १३, १. प्राचीनयोगी- प्राचीनयोगी- पुत्र- -त्र: -प्राव् वृ ६, ५, २. प्राचीन-शाल ^{ll} - -ल: छां ५, ११, १. प्राचीना(न-आ)तान- -नम् कौ १, ५. प्राचीना(न-आ)वीव- प्राचीनावीतिन्- -तिना	शि ५, ५०; -ची शि ५, ५१. प्राच्य ^o - -च्यान् प्र १, ६. प्रा(प्र-आ)ञ्च्, >ञ्वलि, प्राज्या- लीव् ^{ll} छां ६, ७, ६; प्राज्वलयेव् छां ६, ७, ५. प्रा(प्र-अ)ञ्जलि- -लय: गौ ११, २१; -लि: १योत ३६; त्रिवि १, ४; ८, १७; अक्ष १, १०; जाद १, २. प्राजली ^{ll} /हृ प्राजली-कृत- प्राजलीकृत-दो(प>)द- युग्म- -यम् गह ५. प्रा(प्र/अ)ण्, प्राणिति के १, ८; छां १, ३, ३; वृ १, ५, १; २ ^३ ; ३, ४, १; कौ २, ५; गा ६; २१; प्राण्याव् तै २, ७, १; वृ १, ५, २३. प्राण ^{ll} - -ण प्र २, ७ ^१ ; १-११; -ण: के शां ^{ll} १ ^६ ; १, १; २; ८; प्र १, ५; ७; ८; १२; १३; २, ३; ३, १; ३-५; ८; १०; ४, ३; ८; सुं १, ८; २, १, ३; ४; २, २; ३, १, ४; ९; तै १, ५, ३; ७, १; २, २, १; ३, १ ^३ ; ३, ३, १; ७, १ ^३ ; ऐ १, ४; २, ४; छां शां ^{ll} १ ^६ ; १, १, ५ ^३ ; २, ७; ३, ३; ६; ५, ३; ७, १ ^३ ; ८, ४; ११, ५; १३, २; २, ७, १; ११, १; ३, १३, १; १५, ४; १८, २; ४; ४, ३, ३; ४; ८, ३; १०, ४; ५; १३, १; ५, १, १; १३; १५; ७, १; १४, २ ^३ ; १८, २; १९, १; ६, ५, २; ४; ६, ३; ५; ७, १; ६; ८, ६; १५, १; २; ७, १५, १ ^३ ; ४; २६, १; ८, १३, ३; वृ १, १, १, २, ३; ३, ३; ७; ११ ^३ ; २३; २७; ४, ७; १७; ५, ३ ^३ ; ४-७; १० ^३ ; १२; १३; २०; २१; २२; ६, ३; २, १, १०; १७; २, १ ^३ ;
--	--	---

a) व: प्र. उत्सं. (पा ३, २, ४८) । b) उत्तरेण संधिरार्यः । c) दु. टि. प्रतीचीन- । d) =गोत्रप्रवर्तक-
श्रुतिविशेष- । e) पा ४, १, १-५ । f) =श्रुतिविशेष- । g) पा ४, २, १०-१ । h) वैदु. निसा. 'ञ्व', आन. 'ञ्वाली'
इति । यत्तु कर्मणि 'ञ्वाली(=लि) इति कृत्वा सं. चिष्णन्तं पाभे. अयन्वमन्यत, तथिन्यम् । i) 'प्राणिन्-> -णि'
इति वृ ५, १४, ३ । j) 'प्राणः' इति निसा. ? । k) पाठ ३, १५, २३ ।

३,५; ५,४; ३, १, ५; १०; २,
 २; १३; ७, १६; ९, ८; ९;
 २६; ४, १, ३; ४, २; ७; ५, ८,
 १; १२, १; १३, १; २; ३,
 ४; १४, ३; ४; ६, १, १; १३;
 २, १२; यौ १, ६; २, २०; मै
 शां^१; २, ६; ७; ५, १; ५;
 ८; मैत्रि २, ६; ४, ५; ६, १; ५;
 ८; ९; ११; १३; १९; ३१;
 ३३; ३५; ७, १; ७; मैत्रि आह
 शां^१; कै १, ८; १५; जा ४;
 गर्भ ३; ना १; मना २, १५^१;
 ७२^१; ८०^१; ३ १; २; अना
 २६; ३३; ३५; अशि ६, ८^१;
 कौ १, ५; २, १; २; ३; १२^१;
 १३^१; १४; ३, २; ३; ४^१; ७;
 ९; ४, १९; वृष ४, १५, २७; सुबा
 १^१; ४; मन्त्रि १२; ससा ६;
 तै ३, ३४; घ्या ४७; ५६; ६०;
 ऋवि १४^१; ६६; १योट ६५;
 ११९; नाप ३, ७७; त्रिना १,
 १; २, ५४; ७९; ८३; ८४; ११७;
 ११८; योचू शां^१; ११; २३;
 ३०; १००; रा ५, ४; रापू ४,
 ६३; राउ ४, १२; शां १, ४^१; १,
 ७, १२; महा शां^१; १, १; योशि
 १, ६०; ६१; ६४; १०६; ११२;
 १६२; ६, ३६; ५३; पप ४१८; ९;
 ए ३; अल ४, ४२; ५, २५; २९;
 ३१; ३२; सू १६; पाशु २, ८; कष
 २०; यो १, १४; १९; ४७; ५०;
 ५२; जाद शां^१; ४, २३; २५;
 ४२; ४३; ४६; ४७; ६, १७; ३५;
 १०, ४; १संन्या अथ्य कुं सावि

रुजा जावा शां^१; प्रा १, ६;
 ४, १; या १, १; वरा ५, ५४;
 सौ २, १५; सु २, २, ५१; इ
 ११; ३; पा ५, ६; लि ३१०;
 १५; कालि ४०३; ८; गा ५;
 चू १२; वपू १, २; ब्रसू १, १,
 २३; २८; -णम् क २, २, ३;
 प्र १, ४; १३; २, ४; ३, ८; १०;
 ११; ६, ४; तै २, ३, १; ३, १, १;
 ३, १; छां १, २, २; ११, ५; ३,
 १५, ३; ४; ४, ३, ३; १०, ५; ६,
 ८, २; ७, १५, १; वृ १, ३, ३; ७;
 १३; ५, ३; १४; ३, ७, १६; ४, ४,
 २; १८; मैत्रि ६, १९; २५; जा
 ४; मना २, ४७^१; ७०^१; अ
 ३; कौ २, ४; ५; १३^१; १४^१;
 १५^१; ३, २; ६; सुबा ९; १५;
 घ्या ६९; नाप ३, ७७; त्रिना
 २, १३९; १४०; योचू ३०; ४०;
 ९५; ९८; त्रिवि ७, ४८; शां १,
 ४; ७, १; १३; ४३; ४४; पै १,
 २२; २, ९; योशि ६, ३५; ५३;
 पप ४१८; ९; १२; यो १, २७;
 ३२; ४४; ५३^१; जाद ५, ७; ८; ६,
 २२; या १, १; दसा १, ६;
 २प्र ३२; १४; गी ४, २९; ८, १०;
 १३; -णस्य के १, २; प्र २, १३;
 ३, १२; छां १, ८, ४; वृ १, ५,
 १०; १३; ४, १, ३; ४, १८; मैत्रि
 ६, १३; कौ २, १; २; वृउ २,
 ३; ३; नाप ३, ४; ५, १; योशि
 ५, ३७; वरा ५, ५४; योसू १,
 ३४; -णा: प्र ४, ११; सुं २, १,
 ८; तै १, ५, ३; छां ३, १२, ३;

४; १६, १-६; ५, १, ६; ७; १५;
 ७, ४, २; १०, १; वृ १, २, ६; ५,
 १७; २१; २, १, २०; २, ३; ३;
 ६; ५, १५; ३, २, ११; ९, ४; ४,
 २, ४; ३, २८; ४, १, २; ६; ५;
 १४, ४; ६, १, ७; मैत्रि ६, १२;
 ३२; ३५; ३७; मना २, १२,
 १^१; २, २९^१; ७९^१; ७९^१; ३२;
 अशि ३, ८; कौ १, ६; ३, २;
 ३; ४, १९; वृपू १, ८; वृउ
 ५, १-३; सुबा ३; ४; आबो २०;
 त्रिना १, ८; प्रा १, ६^१; वृपू २४;
 पा ५, २; वृउ ३१५; ८; गा १४;
 भव १, ३५; पित्र ६, ६; ब्रसू २,
 ४, १; -णाव प्र ६, ४; तै ३, ३, १;
 ऐ १, ४; वृ १, ५, २३; २, ३, ४;
 ३, ७, १६; ५, १२, १; जा ४; घ्या
 ६०; वउ ३, ४९; -णाव प्र १,
 ६; ३, ४; छां १, २, ९; ५, ४; ५,
 १, १२; वृ २, १, १८; २, ३; ५,
 १४, ४; ६, १, १३; ४, २४; शे
 २, ९; मैत्रि ६, ११; २६; ६ ६;
 मना २, ३८^१; अशि ४, १;
 १५^१; अ १^१; वृ ५; ९; ऋवि ७४;
 तै ३, ५३^१; त्रिना २, १९; १०९;
 योचू ९२; सुद्र ४; पै २, ४८; ३,
 १; ४, ५; योशि ६, ७; यो २, ४५^१;
 सूता १, २५; वृउ ३१५; १६;
 ३१६; ८; शि ७, २८; गा १५;
 भव ३, २६; गी १, ३३; ४,
 ३०; -णानाम् प्र १, १०; छां ३,
 १६, २; ४; ६; ७, ४, २; वृ १,
 ५, २२; २, १, १७; मना २,
 ७४^१; कौ ३, २; अक्ष २, ३२;

a) पाप ३, १५, २३ । b) तैषा १०, १४, १ । c) शौ १९, ६०, १ । d) तैषा १०, ६४, १ । e) शौ १०, २, २७ । f) सङ्घ 'प्राणः' इति अस्या. संटि. । g) श्रु १०, ९०, १३ । h) सङ्घ 'वेद्यः (ःजः)' इति अस्या. । i) = पका-बीजापर- । j) ञामः इति निरा. यनि. सोपः ६. (द्र. भान., अस्या.) । j) प्राणः इति अस्या. संटि. । k) तैषा ३, ७, २, १ । l) तैषा १०, २६, १ । m) ञावृ इति अस्या. संटि. । n) तैषा १०, १०, १ । o) तैषा १०, २३, १ । p) तैषा १०, ६३, १ । q) 'प्राणी' इति भान., अस्या. । r) तैषा १०, ४८, १ । s) 'सर्वं शरीरम्' इति अस्या. । t) 'लोकात्' इति अस्या. । u) 'प्राणीन्' इति अस्या. । v) ञवृ इति अस्या. संटि. । w) तैषा १०, २७, १ ।

५, २८^१; ४३; दे २२; -णाय
 छां ५, १९, १९^१; ७, १५, १; वृ ४,
 ३, ३६; ६, ३, २; मैत्रि ६, ९; मना
 २, ६९^१; कौ २, १; २; प्रा १, ६; -णे
 क २, ३, २; प्र २, ६; तै ३, ७, १;
 छां ५, १९, २; ६, ८, ६; १५, १;
 २; ७, १५, १; वृ १, ३, ३^०; ५,
 २३; ३, ७, १६; ९, २६; ५, १२,
 १; १३, २; ३; १४, ४; खे २, ९;
 मैत्रि ६, ३७; ७, ११; मना २,
 ६९^१; ७०^१; ७१^१; ७२^१; कौ २, ५;
 १३; १४; ३, ४; ९; सुबा ५^१; नाप
 ३, २७; शां १, ७, ३०; ३१; यो
 १, १०; जाद ८, २; प्रा १, ६^१;
 सु २, २, ५२; भव ३, २६; वसू
 ४, २, ३; गी ४, २९; -जेन के १,
 ८; क २, १, ७, २, ५; तै ३, ३, १;
 ऐ ३, ४^१; ११; छां १, ३, ६; ५, १,
 ८-११; ७, १५, १; वृ १, ३, २, ३;
 २४; ३, १, ५; ४, १; ४, १, २; ६,
 १, ८-१२; कौ १, ७, २, ८; ९^१; ३,
 २; ४^१; ६^१; सुबा ४; शां १, ४;
 योशि १, ५९; २, १३; ३, ५; वरा
 ५, ४४; इ ११; २; -जेभ्यः मैत्रि
 ६, ३७; कौ १, ६; ३, ३^१; ४,
 १९; -णेष्वां २, ७, १; २; ११,
 १; २; ४, ३, ४; वृ १, २, ६; ४, ३,
 ७; जा १; राउ १, १; ता १, १;
 गी ४, ३०; -जैः प्र २, ७; सुं २,
 २, ५; ३, १, ९; वृ १, ५, १७; ५,
 ५, २; मना २, ७९^१; अना ३, ३;
 कौ १, २; नाद १२; १४.
 प्राण-कर्मन्- -र्मं शां १, ४; जाद
 ४, ३०; -र्माणि मैत्रि ६, १०; गी
 ४, २७.
 प्राण-कोश-विवर्जित- -जः ते
 ४, ७४.

प्राण-क्षय-समीप-स्थ-
 -स्थम् अल ५, ३०.
 प्राण-गति- -तेः वसू ३, १, ३.
 प्राण-खेतस्- -तसी अल ५, ५२.
 प्राण-जय- -यः योशि १, ६६;
 -यम् योशि १, ८०.
 प्राणजयो(य-उ)पाय- -यः
 शां १, ७, ४३.
 प्राण-सन्मात्र-विषय- -याः
 त्रिमा १, ६.
 प्राण-स्व- -स्वम् सां ५, ११३.
 प्राण-देवता- -ताः न १.
 प्राण-धारण- -णात् अना ७^१.
 प्राण-धारि(न् >)णी- -णी योचू
 ३५.
 प्राण-निरोधन- -नम् अल ४,
 ८५.
 प्राण-परिस्पन्द- -न्दः अल ४,
 ४१; सु २, २, ४८.
 प्राण-पवन-स्पन्द- -न्दः अल
 ४, ८९.
 प्राण-प्रतिष्ठा- -ष्टायाम् दे २२.
 प्राण-धन्वन- -नम् छां ६, ८, २.
 प्राण-बीज- -जम् ध्या ९५.
 प्राण-भृत्- -भृत् वृ १, ५, १४;
 ३, १, ७; वसू १, ३, ४; -भृतः वृ
 १, ५, १४; -भृताम् त्रिमा २,
 ११८.
 प्राण-मनस्- -नसोः मैत्रि ६,
 २५.
 प्राण-मय- -यः तै २, २, १; वृ
 १, ५, ३; ४, ४, ५; सुबा ५; ससा
 १, १३; क १८; -यम् तै २, ८,
 ५; ३, १०, ५; -यात् तै २, ३, १;
 -येन क १९.
 प्राणमय-कोश- -शः वै २,
 २१.

प्राण-मार्ग- -र्गाः ध्या ५६; -र्गो
 योचू २१.
 प्राण-मुख्य-
 प्राणमुख्य-स्व- -स्वेन भा १८.
 प्राण-यात्रा-
 प्राणयात्रा-निमित्त- -त्तम्
 नाप ५, ८.
 प्राणयात्रिक-
 प्राणयात्रिक-मात्र- -मः
 नाप ५, ६.
 प्राण-युक्त- -क्तः नाप ३, २७.
 प्राण-योग- -गेन त्रिमा १, ९.
 प्राण-रूप-
 प्राणरूपिन्- -पिणः सु १७.
 प्राण-बोध- -धः अल ५, ५१;
 तौ २, २; -धम् यो १, ८; १९; -धे
 शां १, ७, ३.
 प्राण-बोधन- -नम् अल ४, ४४.
 प्राण-लिङ्ग- -ङ्गम् सिशि ३८१;
 १३.
 प्राणलिङ्गिन्- -ङ्गिनाम् क
 १६^१; -ङ्गी क १४^१; १५^१; १७^१;
 १८.
 प्राण-वत्- -वता वसू २, ४, १५;
 -वान् मैत्रि ६, १३.
 प्राणवती- -ती मै ५, ५;
 मैत्रि ६, ५; -स्वः अल १३.
 प्राणवत्-स्व- -स्वात् क २४.
 प्राण-वर्ग- -र्गः भव २, २.
 प्राण-वायु- -यवः योशि ६, ११;
 -युः अना ३७^१; त्रिमा २, ११७;
 -युना १शा १८.
 प्राण-वाहि(न् >)नी- -न्यः ध्या
 ५२; ५४; योचू १६; २२.
 प्राण-विद्- -विदः गौ २, २०.
 प्राण-विद्या- -द्या योचू ३५.
 प्राण-विपत्ति- -त्ती योशि १, ३०.

a) °णाङ् इति निसा. यनि. बोधः द्र. । b) मा २२, २३ । c) तैत्रा १०, ३३, १ । d) 'प्राणभोगः'
 इति निसा. । e) तैत्रा १०, ३३, १^१ । f) तैत्रा १०, ३६, १ । g) तैत्रा १०, ६३, १ । h) 'प्राणेन' इति अघ्या.
 संदि. । i) तैत्रा १०, ६३, १^१ । j) °गनिप्रहात् इति श्रान. । k) °णः वा° इति श्रान. ।

प्राण-वृत्ति- -सद्यः पै २, १०.
 प्राण-वेग- -गेन यो १, ७०.
 प्राण-शक्ति- -ज्ञया ब्रवि ७०.
 प्राण-शरीर- -रः मै २, ९; मैत्रि २, ६.
 प्राणशरीर-नेतृ- -ता सुं २, २, ७.
 प्राण-संयम- -मः ते १, ३३; १योत २४; त्रित्रा २, ३०; २भव ३३७ : ६.
 प्राण-संयमन- -नम् ते १, १६; -नेन जाद ६, १२.
 प्राण-संयाम- -मैः शां १, ७, ९.
 प्राण-संरोध- -धः ध्या ४१; योचू २; योरा २.
 प्राण-संरोधन- -नम् अक्ष ४, ४५.
 प्राण-संशित- -तम् छां ३, १७, ६.
 प्राण-संस्पर्श- -शेन मैत्रि ६, २६.
 प्राण-संक्रमण- -गम् जाद ४, ४१.
 प्राण-संग्रहण-क्षम- -मः योचू ९४.
 प्राण-संज्ञा- -ज्ञः जाद ४, २५; २६; ४४.
 प्राण-संशुक्- -कः मैत्रि ६, १९.
 प्राण-संचारि(रु>)णी- -णी मैत्रि ६, २१.
 प्राण-संतति- -तिः अक्ष ३, १०.
 प्राण-संचारण- -गम् तुल १४.
 प्राणसंचारणा(ण-श्र)यं-
 -यम् जा ६; नाप ३, ८६;
 १संन्या १, १; पप ४१९ : १४;
 वा २, १; मि १३; कथु १, १.
 प्राण-समृद्ध- -द्धः मैत्रि ६, ११.
 प्राण-स्थापन- -नम् यो १, ६५.
 -नानि त्रित्रा २, ८०; -ने जाद ४, २८.

प्राण-स्थापन-
 प्राणस्थापन-जीवन-वर्षण-
 गुप्त- -सानि वउ ६, ४०.
 प्राण-स्पन्द- -न्दः शां १, ७, २८;
 ३६; अक्ष ४, ८७; सु २, २, २६;
 -न्देन अक्ष ४, ४३; सु २, २, ४९.
 प्राणस्पन्द-जय- -ये अक्ष ४, ८९.
 प्राणस्पन्द-निरोध- -धात् अक्ष ४, ८६.
 प्राणस्पन्द-निरोधन- -नम् सु २, २, ४५.
 प्राण-स्पन्दन-
 प्राणस्पन्दन-पूर्वक- -कम्^१ महा ६, ७.
 प्राणस्पन्दन-वासना- -ने अक्ष ४, ५४; सु २, २, २७.
 प्राण-हर्तृ- -र्ता भव १, ३५.
 प्राणा(ख-आख्या)> -ख्य- -ख्यः मैत्रि १, १.
 प्राणा(ख-अ)भि- -भ्यः प्र४, ३.
 प्राणा(ण-अ)भि-होत्र- -त्रम् शि ४, ६७.
 प्राणा(ण-अ)त्मन्- -रमने गोउ ६४^२.
 प्राणा(ण-आत्मक)> -रिमका-
 -का पाशु १, ४.
 प्राणा(ख-अ)शयय- -ये ऋस् ३, ४, २८.
 प्राणा(ण-आ)दि- -दयः मैत्रि ६, २६; ३१; ते ४, ८; जाद ४, २५; वरा १, ३; ऋस् १, ४, १२; -दि लिं ३११ : १; ऋस् २, १, २०; -दिः मसा १, २१; -दिभिः गौ २, ११; -दीनाम् अना ३६.
 प्राणादि- -चतुर-दश-वायु-
 भेद- -दाः ससा १, १२.
 प्राणादि-पञ्चक- -कम् त्रित्रा

२, ७८.
 प्राणादि-पञ्च-वायु- -युः ध्या ९५.
 प्राणादिपञ्चवायु-मनो-
 बुद्धि- -द्धिभिः योचू ७२^३.
 प्राणादिपञ्चवायु-मनो-
 बुद्धि-चित्ता(त-अ)हकार- -रैः योचू ७२.
 प्राणादि-वायु- -यवः त्रित्रा २, ७८.
 प्राणादि-रूप- -पम् योरि १, ९०.
 प्राणादि-स्पन्दन- -नम् अक्ष ४, ४३.
 प्राणाद्य(दि-अ)निल-संशा-
 न्ति- -न्तौ अक्ष ५, ५०.
 प्राणा(ण-आ)दिक- -कम् ते ६, ५६.
 प्राणा(ण-आ)दित्य- -स्तौ मै ५, २; मैत्रि ६, २.
 प्राणा(ख-आ)द्य- -द्याः ध्या ५७;
 सांस् २, ३१; सांका २९.
 प्राणा(ण-अ)धिप- -पः खे ५, ७;
 भव २, २३.
 प्राणा(ण-अ)धिर्बुद्ध- -डः त्रित्रा २, ६२९.
 प्राणा(ख-अ)पान- -नयोः ते ३, १०, २; छां १, ३, ३; ध्या ९३, १५; ब्रवि ७८; सं २, २, २; योशि १, ६८; -नाभ्याम् मथा ६; -नेन योचू २९; -नौ सुं २, १, ७; वृ ६, ४, १२; ध्या १००; ब्रवि २२; १योत १२१; त्रित्रा २, ७७; योरि १, १०५; कुं १८; यो १, ६५; ७५; सु ३०; गौ ५, २७.
 प्राणापान-गति- -न्ती गौ ४, २९.
 प्राणापान-वश- -शः ध्या ५८; योचू २८; ३०; योशि ६, ५१.

प्राणापान-समाक्षिप्त- सः
ध्या६०; योचू २७; योशि ६, ५२.

प्राणापान-समायुक्त- कः
गौ १५, १४.

प्राणापान-समायोग- गः
शां १, ६; योशि १, १२८; -गात्
योशि १, ५६.

प्राणापान-सु-योग-

प्राणापानसुयोग-
सप्त(>) वरा ५, ४०.

प्राणापाना(न-आ)दि-चेष्टा-
(ष्टा-आ)दि--दि त्रिप्रा२, ८५.

प्राणा(ण-अ)पान-व्यानो(न-उ)-
दान-समान^१ - ना(!नैः) मना
२, ३५४^b; -नाः मना २, ६५४^b;
पै २, ९; -नान् १संन्या १, १;
कथु १, १.

प्राणा(ण-अ)पान-व्यानो(न-उ)-
दान-समान-नाग-कूर्म-कृकर-
देवदत्त-धनंजय^१ - वाः भा
१५.

प्राणा(ण-अ)पान-समाना-
(न-आख्या)>ण्य- ख्याः
योचू २२.

प्राणा(ण-अ)पान-समानो(न-उ)-
दान-न्यान्^१ - नाः शां १, ४.

प्राणा(ण-अ)भ्यास- सः यो १,
६२.

प्राणा(ण-अ)याम^१ - मः मैत्रि
६, १८; अना ६; ११; ते १,
३१; योचू ९३; १०१; १०३;
१०८; त्रिप्रा २, ९५; शां १, ६६;
१संन्या २, ९७; सं १, १, ६;
वरा ५, ११; १८^d; अक्ष ५,
२७; जाद १, ५; ६, १; २; ६;
योसू २, ४९; -मम् १योत ३२;

योचू १०६; त्रिप्रा २, ५३; ९४;
शां १, ३, १२; जाद ३, १३; ६,
१०; वरा ५, ५५; -मस्य ध्या
२१; योचू १०४; जाद ६, २१;
-माः अना १०; शां १, १^a; -मान्
जाद ६, २०; -मे योचू ९६; ९७;
जाद ६, १५; -मेन योचू १०२;
११६; जाद ६, १६; -मेसु त्रिप्रा
२, १०४^f; १०५; जाद ६, १४;
-मैः अना ८; त्रिप्रा १७; अक्ष ४,
४४.

प्राणायाम-क्रम- -मम् जाद
६, १.

प्राणायाम-दृढा(ड-अ)-
भ्यास- सैः अक्ष ४, ८७.

प्राणायाम-द्वि-पट्क-
-केन योचू १११.

प्राणायाम-वर- -रः योचू ९२;
त्रिप्रा २, १०२; -रस्य जाद ६,
१७.

प्राणायाम-परायण- -णः
नाप ४, ३८^e; -णाः गौ ४, २९.

प्राणायाम-प्रत्याहार-धारणा-
ध्यान-समाधि-योगा(ग-अ)-
बुमाना(न-आ)रम-चिन्तक-

-कैः १आ १^b; २आ ३^f.

प्राणायाम-वियुक्त- -केभ्यः
योचू ११६.

प्राणायाम-ससुद्रव- -वः
शि १, २७.

प्राणायाम-सु-तीक्ष्ण-
-क्षणेन क्षु २४.

प्राणायामै(म-ए)क-निष्ठ-
-दृश्य जाद ६, २०.

प्राणा(ण-अ)राम- -मम् तै १,
६, २.

प्राणा(ण-आ)रुद्र- -रः शां १, ४.

प्राणिन्- -णि ऐ ५, ३; वृ ५,
१४, ३; ६; व ५; -निनः आबो

१४; त्रिप्रा १, २०; २शिसं २;
गार ४०५; १०; -गिनाम् वसू

१८; त्रिप्रा ६, ०; ७८; सी १५;
भव ४, १५; गौ १५, १४; -णी

छां २, ११, २.

प्राणि-कर्म-क्षय- -यात् पै
१, ९.

प्राणि-कर्म-वश- -दात् पै
१, ९.

प्राणि-प्रसव- -वे त्रिप्रा १,
१९.

प्राणि-वाधा-कर- -रे नाप
४, २०.

प्राणि-बुद्बुद- -दानाम् स्व
६०; १.

प्राणि-वध- -घः भव ४, १५.

प्राणि-हिंसा-निवृत्त- -त्तः
नाप ३, १४.

प्राण्य(णि-अ)क-वर्जि-
(त->)वा- -ताम् शि ४, ३३.

प्राणे(ण-इ)पित्रयाद्य(दि-अ)न्तः-
करण-सुणा(ण-आ)दि- -दैः
नि ४८.

प्राणो(ण-ओ)कार-मनो-यु-
(क->)का- -क्तया मैत्रि ६, २१.

प्राणो(ण-उ)म्मेय-निमेष-
-यत्क्याम् अक्ष ५, ४१.

प्रा(प्र-अ)ण्व- -ण्व मुं २, २, १;
-ण्वत्: २शिसं ३३४^f; -ण्वत् वृ
१, ४, ७; -ण्वन्तः छां ५, १, ८-११;

वृ ६, १, ८; -ण्वन्तम् कौ ३, २.
प्रा(प्र-अ)ण्वन्- -नात् योशि २, ७.
प्रा(प्र-अ)णितुम् कौ २, ५.

a) ०गः इति श्रव्या. । b) पा. इति यनि. श्लोचः [तु. सस्थ. टि. स-अ(प्राण् >)णा-> -णा; वैतु. तैशाशा. (१०, ३५) ०नाः इति यनि. सु-श्लोचः पा.] । c) तैशा १०, ५१, १। d) ०माः इति श्रव्या. । e) ०मः इति निसा. संटि. श्रव्या. । f) ०मः इति निसा. । g) ०णधारण्य० इति श्रव्या. । h) तु. उत्र. ; वैतु. निसा., श्रव्या. ०न्तकवट० इति । i) ०हासमाधि० इति श्रान. यनि. श्लोचः द्र.(तु. उत्र.) । j) श्र १०, १२१, ३ ।

प्रा(प्र-अ)णित्वा^१ १संन्या १, १^०.
 प्राण्यपीतियन्^० अद्ध २७.
 प्रातर^{१०} (>) छां १, १०, ६; १२, ३;
 ५, ३, ६; ११, ५, ७; ६; १३, १; वृ
 १, ५, १४; ६, ३, ६; ना ५; मना
 २, ७९१^{१०}; वृजा ३, ५; १योट
 ४३; त्रिमा २, १०१; शां १, ७,
 २; अक्ष १६^३; त्रिता ४, ३४.
 प्रातः-काल-ले १संन्या २, ६७.
 प्रातर-अनुवाक^१-कः छाग २३:
 १०; २४: १३; -कस्य छां २, २४,
 ३; के छां ४, १६, २; ४.
 प्रातर-मध्याह्न-ह्ययोः गार ४०८:
 १४.
 प्रातर-मध्याह्न-तृतीय-सवना-
 (न-आत्मक>)रिमिका-का
 गार ४०७ : २.
 प्रातश्-चिप्रादिवर्ण-सूर्य-
 प्रातश्चिप्रादिवर्णसूर्य-चन्द्र-
 यक्षिणवालावली-
 प्रातश्चिप्रादिवर्णसूर्यचन्द्र-
 यक्षिणवालावली-वत् मं १, २, ११
 प्रातश्-चिप्रादिवर्णा(र्ष-अ)-
 खण्ड-सूर्य-चक्र-
 प्रातश्चिप्रादिवर्णाखण्डसूर्य-
 चक्र-यत् अता ७.
 प्रातः-संध्या^१-प्याम् नाप ३, ८.
 प्रातः-सवन^१-नम् छां २, २४, १;
 ६; ३, १६, १^३; २; काला १३;
 जाषा २२; शौ ५२: ४; ११; नैषु
 शौ ५१ : २.
 प्रातः-सूर्य-मम-प्र(भ>)भा-
 -माम् दे १५.
 प्रातः-स्नान^१-
 प्रातः-स्नानो(न-उ)पवामा-

(स-आ)दि-काय-ह्रस्व-मान्
 १योट ४८.
 प्रातर्दन-प्र/वृद् द.
 प्रातिपदिक-प्रति-पद-द्र.
 प्रातिभ-प्रति/भा द.
 प्रातिभासिक-प्रति/भास् द.
 प्रातिलोम्य-प्रतिलोम-द्र.
 प्रातृद्-प्र/वृद् द.
 प्रत्यहिक-प्रत्यह-द्र.
 प्राथमिक-प्रथम-द्र.
 प्रादक्षिण्य-प्रदक्षिण्य-द्र.
 प्रादुस् (> ३, ५)^१
 प्रादुर(२/अ)स(भुवि), प्रादुरासीत्
 अक्ष १, १.
 प्रादुर/भू, प्रादुर्भवन्ति शा १८:
 प्रादुर्भवत् अक्ष १, ११.
 प्रादुर्वभूव के ३, २; छां १, १२,
 २; २प्र ३३: ९; प्रादुर्वभूवुः
 २प्र ३३: १०; वपु १, ५; प्रादु-
 र्भविष्यन्ति मुद्र २; प्रादुरभूव
 अव्य ६; वरा १, १.
 प्रादुर-भाव-वः त्रिवि ५, २;
 भव १, ११.
 प्रादुर-भूव, ता-तः महा ३, ३;
 -ता पित्र २, ८; -तेषु गोपू २५^१.
 प्रादुप/क, प्रादुरकार्थम् गोपू २५.
 प्रादेश-प्रदेश-द्र.
 प्राधान्य-प्र/धा द.
 प्राध्यसन-प्र/ध्यंस् द.
 प्रा(प्र-अ)न्त-न्ते सुसु १६.
 प्रान्त-भूमि-भौ योस् २, २७.
 प्रा(प्र-अ)न्तर-रम् शि ६, २१५.
 प्रा(प्र/अ)पु>भापि, प्रापति छां ४,
 १, ३^१.
 प्राप्नोति वृ १, ४, १७; मं ३,

१, ३; अता ५; अव्य ४; त्रिता
 १, ४; सु १, १, १५; नाव ३,
 १०-१२; राधा १, २९; सार
 २२२: १; वि १९; प्र^१भाप्नोति
 वृ ५, १३, ४; प्राप्नुवन्ति छां ७, ६,
 १; मना २, ३०-४०^१; रापू ४, ६६;
 राव ३, ७; म २, १५; सू २०; इ
 १८: १०; सार २२२: ४; गी
 १२, ४; प्राप्नोति महा ४, ६०;
 प्राप्नुयात् ३, १०, १; अव्य ७;
 अक्षि २८; प्रा ४, १^३; शि ६, २२;
 गी १८, ७१; प्राप्नुयाम् वृ ६, ३, १.
 प्राप छां ४, १, १; त्रिवि ५, १२;
 महा २, २०; प्राप्स्यति त्रिवि ८,
 २१; प्राप्स्यति त्रिवि ८, १५;
 गी २, ३७; १८, ६२; प्राप्स्ये गी
 १६, १३; प्राप्स्यामि अक्ष ५,
 ५८; प्रापत् वृ ५, १४, ७; ६, ४,
 २८; कौ १, ३१^३; प्रापम् वृ ५,
 १४, ७; गा २४.
 प्राप्स्यते क १, २, १०; मै ४, ३^३;
 मैत्रि ४, ३^३; मैत्रि १, ४, २^३; प्या
 ८९; योचू ६२; योशि १, १३९;
 १४४; अक्ष १, ५१; ४, ७३;
 भव १, ३३; ४९; गी ५, ५;
 प्राप्स्येते वि २९; प्राप्स्यन्ते म २,
 १४; भव १, ६.
 प्रापयति मैत्रि २, ६; छाग २५:
 ४; प्रापयन्ति सार २५६: १६;
 प्रापय छां ४, ५, १; प्रापयत् छाग
 २५ : ४^१!
 प्रा(प्र-आ)पक-कः वपु १, ४.
 प्रा(प्र-आ)पण-
 प्रापणीय, या-यम् १भव २२:
 -या शि ६, १७१.

४) पा ७, १, ३८ । b) 'ह्रस्वा' इति निता. संदि., 'ह्रणीत्वा' इति अस्या. । c) पा. १ । d) =अव्य. ।
 १) पा. १ । e) पा. १ [पु. तीष्ठा १०, १३, १ (पु. मरय. टि. साय-> -यम्)] । f) 'प्रादुरभूवत्' इति निता., 'प्रादुरभूव'
 इति आन. । g) 'मि' इत्यपि पाठे. । h) 'प्रापयति' इति निता., 'प्रापय' इति आन. संदि. । i) तीष्ठा १०,
 ४८-५०, १ । j) 'प्राप्य' इति निता. । k) निता. अस्या. च मुपा. वनि. मु-नोपौ (पु. Jc.) । l) द्युतमम्यपकारः
 मुपा. वनि. मु-नोपः (पु. वे., अथैव 'प्रापयति' इति च) ।

प्रा(प्र-आ)पयित्वा^१ पे ३, १.
 प्रा(प्र-आ)पित- -त्तः वृ ४, ४, २३.
 प्रा(प्र-आ)स, प्रा- -त्तः वृ ४, २, ४;
 नाप ६, २८; महा ४, ६; अक्षि
 ९; सार २२६: १६; २२७: १५;
 २५८: २; २७८: १८; २७९:
 १२; गी १८, ५०; -सम् गौ २, ३;
 ते ३, ५५; नाप ७; महा २, ७२;
 ४, ३७; ५, ४१; २योत १, ७;
 तुअ १४; अक्ष २, २१; १अव
 २२; सार २२६: १५; १७;
 २२७: ५; २३०: २; २४३: ५;
 २४९: २; २५७: ११; २८८:
 २३; भव ४, १४; -सम्-सम् महा
 ५, १००; -सस्य थे २, १२; -सा
 सार २२०: १७; २५७: ६;
 २८५: १६; २३; २८६: १७;
 -सा: छां ४, ५, १; ते १, ४५;
 अवि २५; महा ५, ६०; गोठ
 २४; २प्र ३६: ८; सार २२१:
 २२; २२४: १०; २४०: ११;
 १२; १३; २४१: ४; २४२: १७;
 २४३: ४; २४६: २२; २४८: १४;
 २०; २५०: २३; २५५: ११; १३;
 २७३: १३; २८०: ३; ५; वर्ष
 ३१२: २०; -साम् नाप ३, २५;
 -साम् सि ६, १७२; -साय छां
 ५, ३, ६; -से ध्या १०-१२; नाप
 ५, १८; मित्रा २, १५; योचू ११५;
 पै ४, ९; महा २, १२; यो २, ३०;
 सि ४, ५४; सांका ६८; -सेष्य:
 छां ५, ११, ५; -सौ सार २८९: ८.
 प्रास-कर्म-कर- -रः महा ६, ६४.
 प्रास-प्राप्य-
 प्रासप्राप्य-ता- -तया १अव
 २६.
 प्रास-वस्तु-मात्र- -त्रम् सार
 २७९: १.

प्रास-वि(वा)>च- -यः महा
 ३, १.
 प्रास-विवेक- -कस्य सांस् १, ८३.
 प्रास-शरीर-संयोग- -गाम् ससा
 १, २०^०.
 प्रास-सत्ताक- -कः महा ५, १७५.
 प्रास-हृष्य- -र्षः नाप ७, १०.
 प्रासा(त-अ)खिल-मनोरथ-
 -यः महा २, २९.
 प्रासा(त-आ)वन्द- -न्दः सं २,
 ५, ४.
 प्रासा(त-अ)नुत्तम-विभ्रान्ति-
 -न्तिः महा २, ४७; अक्ष २, २६.
 प्रासा(त-अ)र्थ-प्रकाश-लिङ्ग-
 -ह्राव सांस् ५, १०६
 प्रासो(त-उ)न्मन्य(नी-अ)व-
 (स्या)>स्य- -स्यः सं ३, २, १.
 प्रा(प्र-आ)सवत्- -वन्तः सार २४९:
 १; २५७: ४; २७९: ३; ६७;
 २८०: ७; १२; २८२: १६; -वान्
 क १, २, १०; अक्ष १, ३; ३, १६.
 प्रासवती- -ती सार २८५: ११^१.
 प्रा(प्र-आ)सण्य- -व्यम् महा २, ७२;
 १अव २९.
 प्रा(प्र-आ)सि- -सिः वृ ५, २; ध्या
 ९३, १३; १५; सी ४; सार
 २३६: ५; २४१: ६; २५०:
 १५; १८; सि ५, ४०^३; -सिम्
 थे ३, १२; -से: सार २२६: २३.
 प्रासि-व्यावाम-योग- -गः भव
 १, ११.
 प्रासि-सिद्धि^१- -द्धिः आय
 ३९३: ९; ३९९: ९.
 प्रा(प्र-आ)नुम् क २, ३, १२; क ४
 ३३; भ २, १४; सि ५, १९.
 प्रा(प्र-आ)नुवत्- -वत् सार २९१:
 ८; -वन्तः सार २९१: २१.
 प्रा(प्र-आ)प्य क १, ३, १४; २, ३, ६;

प्र ६, ५^१; सुं ३, २, ५; छां ६, ४,
 ७; ८, ६; वृ ४, ६; ६, २, १६^१;
 गौ ४, ८५; कौ २, १४; लु १;
 अवि ४६; नाप १; ४, ३८, ५, १;
 ६, १, २७; अवि ५, १३, १४; ६,
 १७; २०; २१^३; २३^३; ७, १^१; ८,
 १३; १७; सां १, ५; पै १, ६; २,
 १९; महा ४, १०३; योशि १,
 १३८; तुअ ६; अक्ष २, १४;
 अक्षि १९; कुं २२; यो ३, १७;
 वरा २, ५; सु १, २, ६; इ १०:
 ३; सार २४०: १३; सि १, ३०;
 सिशि ३८१: ४; हे ४; रा ४२३:
 १८; गौ २, ५७; ७२; ५, २०^३; ६,
 ४१; ८, २१; २५; ९, ३३.
 प्रा(प्र-आ)प्य- -प्यः १संत्वा २, १५;
 -प्यम् महा ३, १२^०; योशि १,
 १३९; वव २, २४.

प्रापञ्चिक- प्र^१/पञ्च द्र.
 प्राभूत- प्र^१/भू द्र.
 प्रामाण्य- प्र^१/मा(माने) द्र.
 प्राय^०- -येण नाप ४, २९; भव १, १३.
 प्राय-शस(>) सांस् ३, ७.
 प्रायख- १प्रे द्र.
 प्रायस्(>) सार ३, १०; सि ७, १२९;
 भव १, १७; ५५.
 प्रायश्-चित्त^१- -त्तम् नाप ४, ६; तुल
 ७१: ११.
 प्रायश्-चित्त^१- -त्तयः प्रा २, १^०.
 प्रा(प्र^१/अ)र^१>अपि, प्राप्यतु २प्र
 ३६: १९४^१.
 प्रा(प्र-आ)/रभ् प्राप्रभते गी १८, १५.
 प्रा-रब्ध^१- -रब्धम् नाद २१; २२;
 २३; २९; अध्या ४९; ५६^१;
 ५८; ५९; -रब्धे नाद २९; सु १,
 १, ४३.
 प्रा-रब्ध-कर्म-पयन्त- -न्तम् पै
 ४, ४.

a) पा ७, १, ३८ । b) रसंयोगाम् इति आन. । c) ष्ति^० इति अच्चा. । d) 'प्राप्य' इति अच्चा.
 संदि. । e) व्यु. । f) वैदु. पाग ६, १, १५७ <प्राय- इति । g) ष्तीयः इति आन. । h) मा १, १ ।



प्राबध-कल्पना- ना अध्या
५५; ५७.

प्राबध-क्षय- -यात् सु १, २, ६;
२, १, १.

प्राबधक्षय-पर्यन्त- -न्तम्
सु १, १, ४२.

प्राबध-नाश- -शात् वरा २,
६९.

प्राबध-प्रतिभास-नाश-पर्य-
न्त- -न्तम् नाप ७.

प्राबध-संविता(त-आ)गामि-
कर्म-साधर्म्य-दर्शन- -नात्
वसू १८.

प्राबधा(ब्ध-आ)गाम्य(मि-अ)-
जित- -तानि वरा १, १२.

प्राबधा(ब्ध-अ)न्त- -न्ते वरा
२, ७१^०.

प्राबधा(ब्ध-अ)वस्थिति- -ति:
नाद २८.

प्रा-रम्भ- -म्भः सार २२७ : ३.

प्रा(प्र/अ)र्ध्व > अर्ध्व, प्रार्थयते भव १,
४२; प्रार्थयन्ते क२, १, २; मि३;
५; ७; ९; आध २^०; ३^०; ४^०; गी
९, २०; प्रार्थयन्ति १योज ७८;

प्रार्थये सर ३, २; प्रार्थयामः सार
२३२ : ३; प्रार्थयस्व क १, १,
२५; प्रार्थय सार २६१ : १९;

प्रार्थयत सार २४८ : १२; प्रा-
र्थयेत् क ६३ : ९.

प्रा(प्र-अ)र्धेन- -न्म् गोच ६६:६.

प्रा(प्र-अ)र्धेना- -नया महा ६, ५१;
-नाते ६, २३; -नाः पाशु १, २०.

*प्रार्थया-
*प्रार्थयाम(प्र/अ)स(भुवि),
प्रार्थयामास सार २८५ : २३.

प्रा(प्र-अ)र्धविरावो शि ७, २७.

प्रा(प्र-अ)र्धित- -तः नाप २; सार
२३२ : ४; २४१ : ११; १५;

२४२:१०; -तम् १संन्या२, ६७.

प्रा(प्र-अ)र्ध्वं त्रिता २, ७१.

प्रा(प्र-अ)र्ध्वमान- -नः श १५.

प्रा(प्र-आ)र्ध्व/विश, प्राविशानि मै
२, ६०.

प्रा(प्र-आ)र्ध्व/वृ(आच्छादने)
प्रा-वरण- -णम् वृ ४, २, ३.

प्रा-वृत- -तम् शि ७, १८.

प्रावृत-विरास- -राः शि ७, ६०.

प्रा-वृत्य शि ७, ६०.

प्रावृष्- प्र/वृष् द्र.

प्रा(प्र/अ)र्ध(भोजने), > अशि, प्रा-
शति वृ ६, ४, १९; ३ ३३:३१^०;

प्राभीयात् आह३; जा४; नाप३,
७७; १संन्या १, १; पप ४१८ :
१५; क४ १; कथु १, १; २, ३.

प्राशयति वृ ६, ४, २५; प्राशयेत्
वृजा ३, ४.

प्रा(प्र-आ)शयित्वा^० सिशि ३८३:७.

प्रा(प्र-अ)र्धय वृ ६, ४, १९; जा ५;
नाप ४, ३८^०; पप ४१८ : २२;
वा २, १.

प्राश- /प्रच्छ द्र.

प्राश्री- ३प्रश्न- द्र.

प्रा(प्र/अ)स(भुवि), प्र...अस्तु नाप
४, ७१^०.

प्रा(प्र/अ)स(लेपणे)
प्रा(प्र-अ)स्त, स्ता- -स्तः वृ २, ४,
१२; -स्ता मैत्रि ६, ३७.

प्रासात्- प्र/सद् द्र.
प्रा(प्र-आ)र्ध/स्व्या > तिष्द्, प्रातिष्ठते
प्र ३, १; ५^०; प्रातिष्ठन्ते प्र २, ४^०.

७, १३२; गी ४, १; प्राहुः गी २,
२७; वृजा २, १०; वै३, १; १संन्या
२, ७०; वध्या ३८; यो १, ४२;

६४; रुजा २, १३; सिशि ३८१:
१६; भव २, ०; १३; पित्र ४, ९;
१०; गी ६, २; १३, १; १५, १;
१८, २; ३.

प्रियहनु^०-
प्रियहनु-बिल्व-पैपल्य-नालिकेर-
समुन्नव- -वम् शि ४, ५९.

प्रियाल^०- -लम् शि ६, १६.

>प्री, >प्रोणि^०, १^०विप्रयस्व मना २,
१; व ४६१ : १७^०६.

प्रीयते रुजा २, २; ४; पित्र ३, ३;
प्रीयन्ते रुजा २, ११; प्रीयताम्
सृ १२.

प्रीणाति मना २, ७१^०१; प्रीणात्
मैत्रि ६, ९; आच ६; ७^०; ८;

प्रीणन्तु आच १०.

प्रीणयति सार २२९ : २३.

प्रिय, या- -यः वृ २, ४, ५^०; ४, ५,
६^०; कौ २, ४^०; ते ४, ३६; गी ७
३८; सु २, २, ५४; सार २२६ :
८; काम २; अहमा १५; गी ७,
१७^०; ९, २९; ११, ४४; १२, १४;
१७; १९; १७, ७; १८, ६५; -यम्
तै १, ११, १, २, ५, १; छां ५, १२-
१७, २^०; वृ १, ४, ८^०; १०; २, ४,
४; ५^०; ४, १, ३; ५, ५; ६^०; मना
१, ४१^०; कौ ३, १; ते ३, ५; ४, २२;
१योज १०८; १अव ३; जाद २,
६; गी ७ ६०^०; सर ३, २३; व
१२; ३१०:२०; दि६, २०८; ७,
७९; व ४६०:२२^०; गी ५, २०;
-यया वृ ४, ३, २१; -या वृ २, ४,
४; ५^०; ४, ५, ५; ६^०; कौ १, ३;

a) भार^० इति अद्या. । b) पा ७, १, ३८ । c) 'विविशानि' इति मैत्रि २, ६ । d) वृ. सत्य. टि.
अवृच-> -यः । e) श्र ७, १००, ३ । f) प्रति^० इति तिसा. । g) व्यु: ?=ओपधिविशेष- । h) व्यु: ?=फलविशेष- ।
i) पावा ७, ३, ३७ । j) श्र ८, ११, १० । k) विनि^० इति पा:। यनि. शोषः द्र. (वृ. नाट्) । l) तैषा १०, ३८, १ ।
m) मा ३२, १३ । n) ०यः इति भ्रान. । o) श्र १०, ८४, ५ ।

-याः वृ२, ४, ५^१; ४, ५, ६^०; कौ१, ४; मना२, ५, २१^०; २शिघं२८१^०; गी १२, २०; -याणि क १, २, ३; वृ २, ४, ५^१, ४, ५, ६^०; -याम् सुं १, २, ६; -यायाः गी ११, ४४^०; -०ये तुल ७०: १५; ७१: १२; सार २७६: ९; गु २१; २८; -येण वि ६; -येषु नाप ३, ५१; -यैः भव १, ४.

प्रियस्- -यः क १, २, १^३; २^३; वृ १, ४, ८^३; वरा २, ७; -यसः क १, २, २.

प्रेष्ठ- -०ष्ठ क १, २, ९; -ष्ठः गोड १२^०; -ष्ठाः मना २, ६७^०.

प्रिय-कृत्-

प्रियकृत्-तम- -मः गी १८, ६९.

प्रिय-चिकीर्षु- -र्षयः गी १, २, २.

प्रिय-तम- -मः वृड २, ३.

प्रिय-न्तर- -रः गोड ३२; गी १८, ६९.

प्रिय-न्ता- -ता वृ ४, १, ३; -ताम् भव ४, १७.

प्रिय-त्व-

प्रियत्व-जनन-वर्धन-परि-णाम-क्षय-नाथा- -नाः मुद्र ४^१.

प्रिय-दर्शन, ना- -०न अक्ष ५; -नाः शि ४, २६.

प्रिय-पति- -तिः वड २, ७.

प्रिय-मेघ- -१^०घाः मना २, ७३; चा २०.

प्रिय-रूप- -पात् क १, २, ३.

प्रिय-निरस-

प्रियनिरस-त्व-

प्रियशिरस्त्वा(त्व-आ)घ- (दि-घ)मासि- -सिः प्रसू ३, १, १२

प्रिय-हित- -तम् गी १७, १५.
प्रिया(य-आ)त्मन्- -त्मा वृप ८५: २.
प्रिया(य-आ)प्रिय- -ययोः,
-याम्याम् छां ८, १२, १; -ये छां ८, १२, १; नाप ४, ५; १आ १५;
-येषु शां १, १.

प्रीणन- -नाय सार २२३: १३; २२४: १.

प्रीत, ता- -तः मैत्रि ६, ९; वृप ४, १४; १६; राड ४, १, ५, १; अथ्य ३; अक्ष १, १८; जाद ६, ३७; ता ३, १; वृ ४३४: ५; -ता त्रिता २, ७२; क्वम २२; -ताः प्र २, ४; रूढ ३; रुजा २, १०.

प्रीत-मनस्- -नाः गी ११, ४९.
प्रीता(त-आ)त्मन्- -त्मा ते ४, ६३.

प्रीति- -तिः जाद २, ५; रापू ४, ६०^०; नापू ५, ३^१; सार २३१: ७; २५९: १०; २७९: २; २८६: ३; २८७: २२; २८८: ११; क २७; तारा ८३: २४; गी १, ३६; -तिम् सार २५६: १७; -त्या शु ३, २२; योशि १, १२९; ६, ६७; सार २८८: ११; भव ५, १७; -त्यै भव २, ६०.
प्रीति-कर- -रम् वा ३; गोच ६५: ३; भव १, २९.

प्रीति-पूर्वक- -कम् गी १०, १०.
प्रीति-मत्- -मात् नाप ३, ४८; ४, २८.

प्रीत्य(ति-अ)प्रीति-विपादा- (द-आ)त्मक- -काः सांका १२.
प्रीत्य(ति-अ)प्रीति-विपादा- (द-आ)घ- -यैः सांत् १, १२७.

प्रीयमाण, णा- -णः क १, १, १६;
-णा सार २६४: २१; -णाय गी १०, १; -णेषु मित्र ३, ३.

प्रीमन्- -म्यः सार २२९: १९;
-म्या सार २४९: ७.

प्रीम-प्रेक्ष(ण)>णा- -ण्य सार २८२: ९.

प्रीम-भजन- -भे सार २५४: १०.
प्रीमभजन-रूप(>)या- -याः सार २५४: ९.

प्रीम-मघ- -माः सार २५६: १.

प्रीम-मार्ग-

प्रीममार्गिन्- -र्गिणः सार २७८: २३.

प्रीम-योग- -गः सार २८२: १९.

प्रीम-लक्षणक-

प्रीमलक्षणका(क-आ)घा- (३शा^६)-प्रीतीक्षा- -क्षा(३क्षा: ६) सार २८३: १३.

प्रीम-व(त>)ती- -ती सार २३४: ४; २६२: २१; २६६: १; २६८: १७; -त्या सार २६८: १६.

प्रीमवत्या(ती-आ)दि- -दयः सार २२७: २; २२९: १३; २३९: ७; २६२: ८; २७०: ७.
प्रीम-संबलि(त>)वा- -ता सार २७२: ४.

प्रीम-संपत्ति- -त्तिः सार २८२: २०.

प्रीमा(म-आ)धिक्य- -क्यम् सार २२७. १३; -क्येन सार २२७: ८.
प्रीमा(म-आ)नन्द^१- -न्दम् सार २४९: ७; २८६: ४.

प्रीमानन्द-युत- -न्तम् सार २५३: १९.

४) श्र १, ११४, ७। ५) उत्तरेण संश्लेषः द्र। 'प्रियस्य' इति SCHH. पाठे. (वैत. वे. (NIA २, २३१))। ८) वैपश् यद्र.। ८) 'वृष्टः' इति श्रान.। ९) तैश्चाद्या १०, ६७। १०) 'व्यामज' इति निशा. यनि. शोचः द्र. [द्र. अज्या., अस्तित्वज' इति अज्या. संति. (वृ. या १, २)]। ११) श्र १०, ७३, ११। १२) =पकार-पीजाक्षर-। १३) =कलाविशेष-। १४) वा. क्वि. द्र.। १५) पा. यनि. शोचः द्र.। १६) कत.।

प्रेमानन्द-रक्त-पुरुषोत्तमा-
(म-अ)धिष्ठान-सौष्ठव- -वम्
सार २४५: २२.

प्रेमानन्द-संपत्ति- -ति: सार
२४५: ८.

प्रेमेमा(म-आ)नन्द, न्दा^१- -न्दा
राधा १, २, ४; -न्दाव सार २४५:
२०; -न्दाव सार २४६: २३;

-न्दे सार २४५: २१; २५६: १७.
प्रेमा(म-आ)स(ह्)का- -का:
सार २५४: ५.

प्रेमो(म-उ)प्रक(ण्ड)ण्डा^१-
-ण्डा सार २२६: २.

प्रेमो(म-उ)प्रादक-युत- -तानि
सार २७०: २०.

१प्रे(प्र/इ)मैति के १, १; ऐ ४, ४; छां
२, ४, २; ८, ३, १; वृ १, ४, १५;
५, १७; ३, ८, १०^१; ९, २८, २;
५, १०, १; ६, ४, १२; कौ २,
१०; शा छ; प्रयन्ति तै ३, १-६,
१; छां ५, ३, २; वृ ६, ४, ४;
कौ १, २; २, ८७^b; वृ १, २^१; ३,
५; भ २, १७^१; वृ १, ४^१; २, ३;
प्रयन्तु व ४६०: १४७^d; प्रेहि वृ
६, २, ४; व ४६०: ११७^d; १७७^d;
प्रेयात् कौ २, १५^e; शा ३७.

प्रेय्यामि छां ३, १६, ७.

प्रेय्य- -यत: छां ६, ८, ६; -यन्नि:
वृ ६, २, २; -यन् ऐ ४, ४.

प्रेयती- -त्य: वृ ६, २, २.

प्रा(प-अ)यण- -णम् मना २, ७९^b;
-णात् आथ १; म्र ४, १, १२.

प्रायणा(ण-अ)न्त- -न्त म्र ५, १
प्रे(प्र-इ)त- -त: अद्देमा १५; -तम्
छां ५, ९, २; वृ ३, ७, २; ५, ११,
१^१; -तस्य छां ८, ८, ५; २ संन्या

१५: १; -ता: छां ८, ३, २; -तान्
गौ १७, ४; -ते क १, १, २०.

प्रेत-युर(>)री^१- -री इ १२: ७.
प्रे(प्र-इ)त्य ई ३; के १, २, २, ५; तै २,
६, १^१; ८, ५; ३, १०, ५; छां ३,
१४, १, ४; वृ २, ४, १२; १३; ३,
९, २८, ५; ४, ४, ११७^d; ५, १३;
गौ १७, २८; १८, १२.

२प्रे(प्र-आ/इ)प्र^१भायन्तु तै १, ४,
२; प्र^१प्यात् छाग २४: १०.

प्रे^१ त्रिवि ७, ३८.

प्रे(प्र/ई)च्, प्रेक्षते गौ २, ८; प्रेक्षे महा
५, २७; व ४६४: १४७^d.

प्रेक्ष्यते महा ५, ७२.

प्रे(प्र-ई)क्षक-
प्रेक्षक-चत् मै २, ११; मैत्रि २,
७; सांका ६५.

प्रे(प्र-ई)क्षण- -णम् नाप ६, ३२.

प्रे(प्र-ई)क्ष्य- -क्ष्य: वरा ४, ३.

प्रे(प्र/इ)ङ्ख-
प्रे(प्र-इ)ङ्खितव(>)ती^१- -ती सार
२६९: ८.

प्रेमन्- -प्रेयस्- √प्रो द.
प्रे(प्र/ई)र, > ईरि, प्रेर्यते मन्त्रि ४.

प्रेरयति मैत्रि ७, ११; अशि ६, ७७^d;
प्रेरयेत् नाप ४, ९; त्रिता १, ३३.

प्रे(प्र-ई)रक- -कम् पं १४.
प्रे(प्र-ई)रचित्- -ता पं १.

प्रे(प्र-ई)रित, ता- -तम् घ्या ८९;
योच् ६३; पाशु २, ८; -ता चू
४; -तानि पाशु २, ९.

प्रे(प्र-ई)रित्- -तारम् श्वे १, ६; १२;
नाप ९, ५; ११; भव २, ४;
५७.

प्रे(प्र-ई)र्यमा(ण्)णा- -णा योशि
३, ९

प्रे(प्र/इ)प्(गतौ), > एषि

*प्रेयया-
*प्रेययाम(म्/अ)स(शुवि),
प्रेययामास सार २४१: ८.

प्रे(प्र-ए)पयित्वा^१ नाप ४, ३८.

प्रे(प्र-इ)थित- -तम् के १, १.

प्रे(प्र-इ)थ्य कौ २, १५७^०.

प्रे(प्र-ए)त्^१-
प्रेप-मेद- -द: नाप ३, ६.
प्रेपा(प-अ)भि- -भि: १ संन्या ८
प्रेपौ(प-उ)चारण- -णेन मैत्रे २,
१७.

प्रे(प्र-ए)प्यत्- -प्यन् वृ १, ५, १७.

प्रेप्- √प्रो द.
प्रोक्त-, प्रोक्तवत्- प्र/वच् द.
प्रो(प्र/उ)च्, प्रोक्षति आच ८^१.

प्रो(प्र-उ)क्षित- -तम् वृ १, २, ७.
प्रो(प्र-उ)क्ष्य वउ ६, १३.

प्रो(प्र-उद्)च्/चर्/चारि,
प्रोच्चारयेत् योच् ४०.

प्रोच्-चारयत्- -यन् घ्या ६१.
प्रोच्-चार्यं यो ४२२: २.

प्रोच्यमान- प्र/वच् द.
प्रो(प्र/उ)ञ्च्
प्रो(प्र-उ)क्षित-

प्रोज्झिता(त-अ)सोप-संकल्प-
कल(ना)न- -न: अत्ति २९.

प्रोत- प्र/वे द.
प्रोत्- प्रोय् द.

प्रोदि(प्र-उद्/इ)
प्रोद्-यत्-

प्रोघन्- -निखिल-परमानन्द-
पूर्णा(र्ण-अ)सृत्वा(त-अ)न्धि-
-न्धे: भव २, ३४.

प्रोदित- प्र/वच् द.
प्रो(प्र-उ)द्/घृ(<इ), प्रोदन्ति भक्
४, १२.

a) घस. । b) 'प्रेति' इति शांशा ४, ८ । c) तैश्चा ९, १, १ । d) श्र १०, ८४, १ । e) श्र १०, ८३, ७ ।
f) श्र १०, ८४, ३ । g) 'प्रयुग्यात्' इति अश्या. । h) तैश्चा १०, ६३, १ । i) मा ४०, ३ । j) = बीजमन्त्रविरोध- ।
k) तैश्चा ४, ३८, १ । l) 'प्रेरयत्' इति शौ १०, २, २६; अयान., 'प्रेरयन्' इति अश्या. । m) पा ७, १, ३८ ।
n) 'प्रेय्यन्' इति अयान., शांशा ४, १५ ।

प्रो(प्र-उद्)>न/नम्
 प्रोन्-न(त>)ता--ता: शिद्, ११५.
 प्रोन्-नमश्-
 प्रोद्यमत्-कटि--टिम् वपू २, २.
 प्रो(प्र-ऊ)म्
 प्रो(प्र-ऊ)वृ--ता ए २.
 प्रोप्य- प्र✓वम्(निवासे) द्र.
 प्रौढ- प्र✓वह(गती) द्र.
 प्रीहन्^{११}-हा वो १, १८^b.
 ✓प्लु, >शक्ति, पोप्ल्य>पोप्लयि,
 झवते २प्र ३५: १५.
 झववेत् वृजा २, १६.
 पोप्ल्ययन्ति धार्थे ७: ५१^o.
 प्रवव^{१२}-चा: सुं १, २, ७.
 झव-वत् निर्वा २९८: १५; योशि
 द, ७९.
 प्रवव^{१३}-
 झव-ग^१-
 झवग-परिवृद्ध- अम् तां
 २१४: २.
 झवव- चन् शु ३, २०.
 झवन- नम् पि १६.
 झव्यमान- नम् वृजा २, १३.
 प्रप्लुत- त्त: भव १, ८.
 प्रप्लुत, ता^{१४}- त्त: नाप ८, १; वरा
 ५, ६९; तु द^१; तम् वरा ५,
 ७०; ता वृपू ३, ३; वपू २, २^१.
 प्लुत-प्रणव-प्रयोग- नोन अ१.
 प्लुत-मात्रा- त्रया १योत द३
 प्लुत-संहार- र: नाप ८, १.
 प्लुति^{१५}-
 प्लुत्पु(ति-उ)संहार- र: तु द.
 प्लुपि^{१६}- पिणा वृ १, ३, २२.

ध३६: ६; ह्यो ११.
 फं-कार- -०२ अक्ष ५.
 फद्^१ वृपू २, ४; यु १, १८^१; त्रिवि ७,
 ३०^१; रार ३, १; तावि १०;
 त्रिता ३, ३४; दत्ता २; गद् ३;
 नाउ २, १०; फद्-फद् व ध३२:
 २; ध३३: १६; ध५८: १९.
 ✓फण्>फाणि(वधा.)
 फण- णा: राधा १, ९.
 फणा(ण-अ)प्र- प्रेण यो १, ८२.
 फनिन्- गिभि:सिशि ३८२: २१
 फणि-संयुत- तम् रापू ४,
 ५३.
 फणी(णि-इ)न्-कश्य-
 -इवम् व १०.
 फणित^{१७}- तम् शि द, २८.
 ✓फल्, कलति शि ७, ११३; पित्र २, ५.
 फल्^१- लम् गौ ४, १४; १५;
 १७: २३; ७६; मैत्रि ७, ९; मैत्रे
 १, ४, १३; अ ३^१; वृजा ७,
 १^१; २; ३; ७^१; ८^१; ८, १; वृपू ५,
 ११; काला ५; ते द, २२; ५०;
 १योत १११; नाप ३, ३९; ५,
 १; महा ५, ६६; योशि १, ३८;
 ४९; १४२; १४३; १संन्या २,
 ५९; अक्ष १; अक्ष ४, ३२;
 ९२; अध्या २८^१; त्रिता ४, ३०;
 कठ ३७; ४१; रुह ४१; यो २,
 ४४; अ २, २१; त्रि १२२^१;
 रुजा १, १^१; २, १; ३, १^१; वरा ४,
 ४०; इ १९: ४; १८; निह २,
 ९; ऊ द३: ३; गोच द८: १९;
 द९: ३; सार २८७: ८; शि ४,
 ३२^१; ३३; ३७; ४०; ४५; ४७^१;
 ५, ४३; ६, १८; २२; २७; २९;
 ३०; ३३; ४६; ७०; ७१; ८०;

९६; १२६; १८१; २०२; २२०;
 २२३; २२४; २२८; २४४;
 २४८; २४९; २५१; २६३; २८२;
 सिशि ३८३: ६; व ध५९: २;
 तारा ८३: ९; २कौल ११: भव
 १, ५१; वसू ३, २, ३८; ३, ४२;
 गी २, ५१; ५, ४; ७, २३; ९, २६;
 १४, १६^१; १७, १२; २१; २५;
 १८, ९; १२; -लस्य गौ ४, १४^१;
 १५; -लाव गौ ४, १७; १८;
 -लानाम् वृ द, ४, १; -लानि वृ
 द, ३, १; ४, १; पै ४, २३; महा
 ६, ८३^१; ता ३, ९; सार २६६:
 ६; १०; शि द, १९; २१; ५१;
 ८०; ७, ९३; गी १८, ६; -ले सि
 द, २२; गी ५, १२; -लेले सि
 द, १७; ५१; -लेयु गी २, ४७;
 -लै: रार २, ३४; महा ५, १३३;
 अ २, २१; सार २३३: ८; १२;
 २४२: ६; २६९: ६; २८७: २२;
 शि द, १६१.
 २फल^{१८}- ल: पा ८, २.
 फल-कर्म-कर्त्तु- त्तौ शे ५, ७;
 भव २, २३.
 फल-तप्त(>) रापू ४, २^२.
 फल-द- द्वा: अक्ष ४, ८३; मु
 २, २, १०.
 फल-दर्शन- नाव सां ५, १.
 फल-प्रयो(त्र-उ)दका(क-आ)-
 हार^{१९}- र: नाप ४, ३८.
 फल-पर्वत- तम् शि द, ८१.
 फल-प्राश-निषेदन- ने शि द,
 २६५.
 फल-पुष्प- -सै: सार २७६: २१
 फलपुष्प-युत- ता: सार
 २८३: २१.

फ

फं^२ यो ३, १; व्याप ३९६: १; व
 ऋ. इ < ✓सिद्ध गतौ? (पाउ १, १५८)। b) 'जलोदरहीह' इति श्रव्या। c) 'प्लुल' इति वे.।
 d) करणे क्त = नौक-। e) भाष.। f) प्लुत इति मुपा. यनि. शोध: द. (तु. नाप ८, १)। g) पैप १ यद.।
 h) = बीजमन्त्रविशेष-। i) श्रव्य. = शब्दावुद्धति-। j) तु. पा ७, १, १८। k) बभ्रा. द.। l) पा! निसा. पल-> -लम्
 इति शोध: द. (तु. श्रव्या., तान्त्रि.)। m) विप. = फलप्रद- (तु. पाटी.)। n) 'फलद्' इति श्रव्या.। o) दस. > दस.।

फल-पुष्प-मणिलता^१-

फलपुष्पमणिलता-हरितपी-

तश्चेतशुभ्र-अमर-संयलित-

योजित^२-तानि सार २६२:१४

फल-भाग-

फलभागिन्-

✓फलभागीय, फल-

भागीयते श्या २११^०.

फल-भोगिन्-भिनः गर्भ ४^०;

-गी १आ १३.

फल-मुक्ति-प्रदायक-कम् गर्भ

४^०.

फल-मूल-पुष्प-वारि^३-रिभिः

शां १, ५.

फल-मूलो(ल-उ)दका(क-अ)-

न्वित-तम् शां १, ५.

फल-रस-त्वक्-पत्र-मूलो(ल-उ)-

दक^४-कैः नाप ४, ३८.

फल-विशुद्धा(द-अ)ङ्ग-

फलविशुद्धाङ्गिन्-ङ्गी कुं०.

फल-ध्रुवि-तेः असू ३, ४, ४४.

फल-संपत्ति-त्तिः सांख ५, २.

फल-संप्राप्ति-सिः भव १, ४५.

फल-सिद्धि-द्धिः गौ ४, १८.

फल-हेतु-तवः गौ २, ४९.

फला(ल-अ)काङ्गिन्-ङ्गी गौ

१८, ३४.

फला(ल-अ)धिक-कः राउ ५, ४

फला(ल-अ)न्-अभिलाप-पः

मं १, १, ४.

फला(ल-अ)फल^५-ले महा २,

४९.

फला(ल-अ)मिसंधान-नम्

नि २६.

फला(ल-अ)धं-

फलाधिन्-धिना शि०, ४३

फला(ल-अ)धं-

फलार्ध-क-कम् शि ६,

२६६.

फला(ल-अ)वगम-मः सांख

१, १०६.

फला(ल-अ)वेश-शेन सार

२२९:३.

फला(ल-अ)हार-रः नाप ५, १

फलहारिन्-री नाप ५, १;

१संन्या २, १३,

फलित, ता-तम् १अव ३१;

-ताः सार २७६:१८; -तानि

मृ ८.

फलिन्-लिभिः आर्षे ७:७.

फलिनी-नीः प्रा १, २५^०.

फलो(ल-उ)दय-यः अघ्या ४९

फलो(ल-उ)पभोग-गः सांख

१, १०५.

१-२फल-✓फल् द.

फलक^६-के अव्य ६; शि०, १२१.

३फल(>)ला^७-लाम् शां १, ७, ४३^१

फारिणित-✓फण् द.

फालि^८-लम् वृजा ५, १६.

फालो(ल-ऊ)ध्वंग-ललाट-

विशेष-मण्डल-ले अता ५.

फूत्

फूत्-कार-

फूत्कार-शब्द-द्दः मं १, २,

७; अता ५.

फेन^९-नम् अशि ६, १४; त्रिवा २,

१४; वटु ३१७:२१; गार ४०५:

५; -नाव् अशि ६, १४; वटु

३१७:२१; गार ४०५:५.

फेन-तरङ्गा(ङ्ग-आ)दि-दि जाद

१०, ६.

फेन-प्रा^{१०}-पाः आध ३.

फां, फ्रां, फ्रॉं, फ्रूं, फ्रैं व ४३२:१५^०.

फ्रां^{११} व ४२८:९.

फ्रां^{१२} व ४३२:१.

व

वं^{१३} आय ३९६:१; व ४३७:२३;

हंपो ११.

वं-कार--०र अत् ५.

श्वक^{१०}-कः छां १, २, १३; १२, १३;

२श्वक^{११}-कः कृ १४.

श्वक^{१२}-

श्वक-मूपिक-कम् वृजा ४, ६.

श्वकुल^{१४}-कैः काम २४.

श्वकुल-वन-नम् सार २२१:१२.

श्वकुल-वृक्ष-क्षणात् सार २३३:

१४.

श्वग(ल>)ला^{१५}-ला व १९; पी

४२२:८.

श्वगला(ला-आ)दि-पोडशा-

(श-अ)नुगत(>)ता-ताः

पी ४२२:१५^१.

श्वगला-मु(ख>)ली-०लि व

४३६:१३; ४५४:१९.

श्वटु-श्वटु-द.

श्वटुया-श्वटुवा-द.

श्वडिश^{१०}-

श्वडिश-पि(ण्डक>)ण्डिका-का

महा ३, ४६; या २, १२.

श्व(<>व^{११})त^{१२}क १, २, ९, १२, १; छां १,

१०, ६; २, १, ३^१; ८, ८, ५; वृ २, ४,

४; ६, ४, २८^१; सूता ३, ५; भव

१, २५; गौ १, ४५.

श्वदर^{१३}-

श्वदी-

श्वदरि(क>)का-

श्वदरिका(का-आ)धम-

क्षेत्र^{१४}-ग्रम् म ४८:१८.

a) दस. b) सप्त. >पस. >सू. c) गृ. (पृ १६९) ✓ई<ईयते इत्यत्र यनि.शोधः द. d) °भां इति अच्चा. i) °यिनम् इति ध्यान, अच्चा. f) श्र १०, ९, १५. g) विप. i) अर्थः श्वु.च ? i) 'कलाम्' इति अच्चा. ii) श्वु. ? i) श्वु. ? i) =मात- i) k) =शब्दावृत्ति- i) वैप १ यद. iii) =वानप्रस्थविशेष- i) n) =पीजमन्त्रविशेष- i) o) श्वु. ? i) =अविशेष- i) वद- इति J. c. p) श्वु. ? i) =राजसविशेष- i) q) श्वु. ? i) =जलचरविशेष- i) r) श्वु. ? i) =श्वुविशेष- i) s) श्वु. ? i) =देवीविशेष- i) t) बला इति पा. ? यनि.शोधः द. u) श्वु. ? i) =मत्स्यवेधन- i) v) प्रादेशिकोधारणभेदमात्रवेन निर्देशः i)

यद्री-फल-मात्र- -ग्रम्
 रुजा १,७.
 रचदर- -नाणि शि ६,२०.
 रचदर^{१०}-
 वादरायण^{१०}- -गः प्रसू १,३,२९;
 ३३; ३,२,४१; ४,१; १९; ४,३,
 १५; ४,७; १२; -णास्य प्रसू ३,४,८
 वादरि^{१०}- -रिः प्रसू १, २,३०; ३,
 १,११; ४,३,७; ४,१०.
 यधिर^{१०}- -रः घ्या ९,३,१; १योत ७७;
 नाप ३,१; ६२; ६७; १संन्या २,३;
 सृ १०; राः छां ५,१,१०; सृ ६,
 १,१०; नृव ६,४; रा-नू कौ ३,३०.
 याधिये- -र्यम् महा ४,२६.
 यधिर-वत् अना १५०.
 यधितो(र-उ)न्मत्त-मूक-
 यधितोन्मत्तमूक-वत् नाप ४,२२
 यध्योता^{१०}-
 याध्योता^{१०}- -गः, -गावृ सृ ६,५,३.
 √वन्धु, > वन्धि, यन्नाति ध्या ७७;
 योचू ५०; सां ३, ७३; सांका ६३;
 गी १४, ६; यन्नाति अक्ष ४, ७५;
 यन्नाति प्रा १, ३९; व ४३६ :
 १०^१-१२^१; १३^१; यन्नातु व
 ४३८: १२; २२; ४३९: ९; १९;
 ४४०: ६; १६; ४४१: ४; १४;
 ४४२: २; १३; २३; ४४३: १०;
 यन्नीत नृपू ५, १०; वृजा ६, १२;
 रुजा ३, १; शि ६, १४७; यन्नि-
 यावृ शां १, ७, ७; शि ६, १४०.
 यवन्ध श ११.
 यध्यते श्वे १, ८^१; छु २४; २५;
 ध्या ८२; नाप ५, ७; ९, ७;
 योचू ८४^१; पै ४, २०; महा ४,
 ७३; १२४; १२६; ५, ८७;
 १संन्या २, ९८; वरा २, २८;

४४; शि ७, ११४; सांका ६२;
 गी ४, १४; यध्यते वरा २, १७.
 यन्धयामि व ४३४ २१; ४३५;
 १; ४४४: ५; १५; ४४५: २;
 १३; २३; ४४६: १२; २२;
 ४४७: १०; २१; ४४८: ९;
 २०; ४६६: ४; यन्धय-यन्धय
 लां २१६: २^१; ३; ५; १३; १५;
 १६; वपं ३१२: ६; व ४२७:
 २१^१-२३^१; ४२८: १^१-३^१; ४-६;
 ९; ११; १३; १४; १६; १८;
 २०; २२; ४२९: १; ३; ५; ४३४:
 १७; १९; ४३८: १३; २३;
 ४३९: १०; २०; ४४०: ७; १८;
 ४४१: ५; १६; ४४२: ३; १४;
 ४४३: १; १२; ४४५: १६; २३;
 ४५०: ७; १४; २१; ४५१: ७;
 १४; २१; ४५२: ६; १४; २२;
 यन्धयेत् त्रिवि ७५; योशि ५,
 ३८; ३९.
 यद्, द्वा- -द्वाः गौ २, ३२; मैत्रि ६,
 ३०^१; मना २, १२, २९^१; नाद
 ४३; ते ६, ८३; आबो ९^१; स्क
 ६; ७; महा २, ७०; ४, ४८; ६४;
 अक्ष ५, ६८; १०५; १आ ३१;
 १अव ८; त्रिता ५, १०; वरा २,
 ३१; ७८; ७९^१; मु २, १६८^१;
 शौ ५३: १६९^१; सता १, ४१;
 १०४; अवि १०; -द्धम् पै ४, २;
 मैत्रि ४, २; व १८; योशि १,
 १६०; वरा २, ७८; मु २, १६;
 लि ३१०: २९^१; शि ६, १४६^१;
 -द्धस्य पाञ्च २, ३१^१; सांशू १, ७;
 -द्वा ध्या ८५; योचू ५८; महा

६, ५०; -द्वाः महा ४, १३३; गी
 १६, १३; -द्धान् मना २, ७३;
 चा २१; -द्धानि शि ६, १०३;
 -द्धे ते ६, ८२; शां १, ७, ३३; या
 २, १९.
 यद्-स्व- -स्वात् त्रिता ४, १२.
 यद्-पंथा(घ-घ्रा)सन- -नः
 योचू ९५; १०६; शां १, ७, १;
 अक्ष ३, ४; -नम् त्रिता २, ४०;
 यो १, २३.
 यद्-पीठ- -ठम् महा २, २६.
 यद्-मुक- -कः महा ५, ७४.
 यद्-शि(सा)>स्व- -स्वः
 भाच २.
 यद्(द्-अ)ञ्जलि- -लिः सार
 २५७: २२.
 यद्दो(द्-उ)भय-त(ट)>डी-
 -डी सार २५८: २१.
 यद्घ्वा अना १९; कौ १, १९^१;
 ध्या ६९; त्रिता २, ४५; योचू
 ४०; शां १, ३, ८; योशि १,
 ७०; त्रिता ३, १९; यो १, १०;
 जाद ३, ७.
 यन्त- -न्त त्रिता २, ११६.
 यन्ध- -न्धः सता १, १; ५; नि
 ९; ३४; ३५; ३६-४०^१;
 ते ४, १३^१; २२^१; ५, ४४;
 आबो १९; त्रिवि ५, ४; पै २,
 ५२; महा २, ४१; ४, १२६; ५,
 ९७; १२२; ६, ७७; अक्ष २,
 १८; २४; २५; वरा २, २४; ५,
 ७; मु २, १, १; सार २९१: १२;
 १४; सृ ११; साधू ३, २४; ४,
 २६; ६, १६; सांका ४४; -न्धम्
 ते ५, ९०; १०१; पै २, ५१;

a) पा ४, २, १६३। b) व्यु.इ = गोत्रप्रवर्तक-व्यधिविशेष-। c) = आचार्यविशेष-। d) व्यु.ः। e) 'अकर्ण-
 वद' इति श्रान्। f) 'आ...यन्नामि' इति पै १३, १३, १०। g) वुं इति शंटी. प्रष्ट., J.C.। h) अवच^० इति
 सात.। i) ष्ट ४, ५८, ३। j) 'वद्धः' इति श्रव्या.। k) 'वन्धः' इति श्रव्या. संटि.। l) 'वन्धः' इति निता. संटि.।
 m) ष्ट ६, ७४, ३। n) 'वन्धस्य' इति श्रव्या. संटि.। o) ष्ट १०, ७३, ११। p) वन्ध^० इति श्रव्या.। q) पा.३
 अक्षवन्- > -ध्वा इति निता. शोधः द. (तु. शांसा ३, १; श्रान., श्रव्या., वे.)। r) ०न्धम् इति श्रव्या.।

सर २,९; गी १८,३०; -न्धस्य
अज ५, १०२; वरा ५, ४२;
भव ३, १४; -न्धाः लिं ३०९;
४; १कौल ३:३; -न्धात् गी ५,
३; -न्धाय मै ४, ४, ११; मैत्रि
६, ३४; ऋषि २; मं ५, १, १।
अज २, १; २; द्या १; भव २,
२२; अचि २; सांस् ४, ८.
बन्ध-कर-राणि १संन्या २, ७९.
बन्ध-कारण-शैथिल्य-ख्यात्
योस् ३, ३९.
बन्ध-ता-न्ता अज २, ३७.
बन्ध-स्व-स्वम् ते ५, २४.
बन्ध-ध्वंस-मात्र-प्रम् सांस्
१, ८६.
बन्ध-नाश-शाय भव १, १.
बन्ध-मुक्त-कम् वरा २, ३१.
बन्ध-मुक्ति-विहीन-नः ते ३,
३७.
बन्ध-मोक्ष-क्षयोः मै ४, ४,
११; मैत्रि ६, ३४; त्रिता ५, ३; शा
१; अचि २; भव ३, १४; -क्षाय
पै ४, १९; महा ४, ७२; वरा २,
४३; शौ ससा ६; १आ २६; २९;
सार २८९; १६; सांस् ३, ७१.
बन्धमोक्ष-कलना-ने अज
२, ३६.
बन्धमोक्ष-विभाग-नाम्
ते ५, ८३.
बन्धमोक्ष-विवर्जित-न्तः
ते ४, ५०^b; ६६.
बन्धमोक्ष-स्वरूपा(प-आ)-
त्मन्-न्मा ते ४, ६६.
बन्धमोक्षा(ज-आ)दिक्-
कम् ते ५, ३८.
बन्धमोक्षा(ज-आ)दि-व्यव-
हार-न्तः आषो ११.
बन्धमोक्षा(ज-आ)दि-हीन-

-नः मैत्रे ३, ९.
बन्ध-मोक्षण-जे १आ २७
बन्ध-मोचक-कम् मु १, ४, ६६.
बन्ध-योग-नाः सांस् ६, १७.
बन्ध-योग-विनिर्मुक्त-कम्
शि ४, १०.
बन्ध-यो(य)ग्या-ग्यया
महा ६, ५९.
बन्ध-रूप-पम् नि २५.
बन्ध-वत्-वान् महा ६, ३५.
बन्ध-वर्जित-न्तः ते ४, ३६.
बन्ध-विपर्यय-वौ ऋषि २, ५.
बन्ध-हेतु-न्तः मं २, ४, ५.
बन्धा(न्ध-अ)भाव-वे ते ५,
२४.
बन्धा(न्ध-आ)यास-विलोकन-
नात् महा ६, ५५.
बन्धा(न्ध-अ)योग-गात् सांस्
१, २०.
बन्धा(न्ध-आ)स्था-स्थाम्
महा ६, ५३.
बन्धय¹⁰-न्धः ध्या ७६-७८;
१योत ११९^१; १२०; योचू ४२^३;
५०; शां १, ७, ११; योशि १,
१०६; १०९; १११; ५, ३९; यो
१, ४७; ५१; वरा ५, ४२-४४;
-न्धे ध्या ७८; योचू ५१.
बन्ध-त्रय-न्थम् योशि १, १०१;
१०२; यो १, ४०; वरा ५, ४५;
-येण योशि १, ८९.
बन्धप्रय-समन्वित-न्तः यो
१, ५५.
बन्ध-मुद्रा-द्वा ऋषि ६९.
बन्धन-नम् छां ६, ८, २; ते ५,
१७; त्रिमा २, २४; २६^१; महा
५, १२८; त्रिता ५, ३; यो ३, ७;
-नात् वृ ३, ३६; मै ४, ४, ५;

मैत्रि ६, ३४; मैत्रे १, ४, ७; मना
२, ५६^१; ७^१त्रिता १, ८; ४,
११; वरा ३, १३; २५; शा २;
इ १२:१०; सूता १, ४१; रशिसं
२४^१; ७^१व ४३०:२; ४३८:
१७; ४३९:४; १४; ४४०:
१; ११; २१; ४४१:९; १९;
४४२:७; १८; ४४३:५; १५;
४४४:९; १९; ४४५:६; १७;
४४६:४; १६; ४४७:२; १४;
४४८:२; १३; ४४९:१; ११;
१८; ४५०:२; ९; १६; २३;
४५१:९; १६; २३; ४५२:८;
१६; ४५३:१; ६; १३; १८;
४५४:१; ७; १५; २१; ४५५:५;
भव ३, १५; -नाय योचू ४४;
शां १, ७, ३७; योशि ६, ५५.
बन्धन-मध्य-स्थ-स्थम् यो
३, ६.
बन्धन-स्थ-स्थस्य मै ४, २६;
मैत्रि ४, २.
बन्धु^b-न्धुः वृ १, १, २; ४, १, २;
मना १, ४^१; सुवा ४; ते २, १९;
महा ६, ७१; अज ५, ६१; इ ११:
५; १७; स्व ६२:२; हे २; गी
६, ५; ६; -^१न्धुम् वृजा १, १;
वृप १, १; -न्धुत् १संन्या १, १;
कथु १, १; गी १, २७; -न्धुनाम्
नाप ४, ९.
बान्धव-वः सुवा ४; -वा:
महा ३, ३५; ४, २८; शि ६, १६६;
-वान् शा ३०; -वैः कठ १; शि
६, १२७; कथु २, ३.
बन्धु-पुत्र-प्रम् द्या १८^१.
बन्धु-वर्ग-नीस्य मै १, ५; मैत्रि
१, ४.
बन्धा(न्धु-आ)दि-दीम्भा ११

a) बद्ध इति शब्दा. गं.टि. । b) मुक्ति इति शब्दा. । c) क्षवि इति शब्दा. । d) =योगमुद्रा- ।
e) बद्ध इति शब्दा. बद्ध इति शब्दा. गं.टि. । f) श्र ७, ५९, १२ । g) स्थः इति शब्दा. । h) वैपश् बद्ध. ।
i) मा ३२, १० । j) श्र १०, १२९, ४ । k) न्धु पु इति शब्दा. ।

चन्धूक^क-

चन्धूक-पुण्य-वृत्ति- -तिम् यष्ट५६; २२.

चन्धूक-पुण्य-वर्ण- -र्णम् प्या २३, १२.

चन्धूक-संनिभ- -भम् प्या २६.

चमस- /मस् द.

चभ्रुषी- /भ्रु द.

श्चभ्रु^०-

श्चभ्रु^०- -भ्रुः नी १, १९^०; ३, ३९^०; -भ्रुणा नी ३, ५.

चभ्रु-कर्ण- -र्णः नी ३, २९^०.

श्चभ्रु^१-

वाभ्रव- -वः, -वाव वृ २, ६, ३; ४, ६, ३.

चंभ्रम्यमाण- /भ्रम् द.

चर्कु^०- -र्कुः वृ ४, १, ४^०.

चर्वर^१- -राः आर्षे ८: १५.

चर्ह^१।।

१वर्हा(र्ह-आ)पीड^१क-

वर्हापीडा(ड-अ)निराम- -नाय गोपु ३७.

२वर्हा(र्ह-आ)पीड^१- -डः सार २४५: ११.

वर्हिस्^१।।- -र्हिः छां ५, १८, २; वृ ६, ४, ३; मना २, ८-९^०; -र्हिषि २प्र ३३: १६; ३६: २२९^०.

श्चल^०- -लम् के शां^१९; तै १, २, १; ३, १०, २; छां शां^१९; २, २२, ५; ७, ८, १; २; २६, १; वृ ५, १४, ४; आह शां^१९; मना २, १५९^०; ३५९^०; ५१९^०; ७२९^०; ७९९^०;

मेत्रे शां^१९^०; ऋ २; वृ ३, १०; १योत ५८; नापष्ट, ३८^१९^०; योचू वा महा शां^१९^०; १संन्या शां^१९^०; २, ६; अथ्यं छां सावि रजा जाद जावा शां^१९^०; छ १२; वरा ५, ३९; पा १०, ५; सार २२१: १; सु २२४: ३; शि ५, २; दे ११; गा १३; गी १, १०^३; ७, ११; १६, १८; १८, ५३; -लस्य छां ७, ८, २; -लाव छां ७, ८, २^३; ९, १; ते १, ४०; शां १, ८; महा ३, ३४; योशि १, १०४; १२५; ४, १९; अन्न ४, २५; ७४; ५, ४२; यो १, ४२; ६३; जाद ७, २; गी ३, ३६; -लानि योस् ३, २४; -ले वृ ५, १४, ४; शां १, ७, ५२; गा १३; -लेन छां ७, ८, १^०; मना २, ७९९^०; नापष्ट, ३८९^०; २संन्या १७: ५९^०; २सिंस २३; हे ४; -लेयु योस् ३, २५.

श्चल^१- -लाय मना २, १८९^०; त्रिवि ७, ४६; पा ८, १०.

बलिष्ठ- -ष्ठः तै २, ८, १.

बलीयत्- -यः ऋस् ३, २, ४४;

-यांसः शौ ५२: १७; ५३: ४;

-यांसम् वृ २, ४, १४.

बल^१बल-दा- -दाः वृपु २, १६;

२सिंस ३४.

बल-वेय- -याय वृ ४६०: ८९^०.

बल-प्रमथन- -नाय मना २, १८९^०.

बल-वत्- -वत् छां २, २२, १; भव १, ४५; गी ६, ३४; -वताम् गी ७,

११; -वत्सु महा ४, ३४; -वन्तः छां २, ३२, ५; वृता १, २०;

-वावृ छां ७, ८, १; त्रिमा २, १०३;

१४०; शि ३, ११; गी १६, १४.

बल-राम^०- -रौ रार २, १२.

बल-विकरण- -णाय मना २, १८९^०.

बल-हीन- -नेन सुं ३, २, ४.

बला(ल-आ)रोमय-विचर्धन- -नम् गोच ६८: १५.

बलिन्- -लिनाम् हे ११; -ली छां ७, ८, १; इ १२: १५.

बलो(ल-व)दि(त)वा- -वा महा ४, ६२.

श्चल^१-

बल-मुत्त- -ल छां २१६: १३.

श्चल^१-

बला^१- -ले सावि १०^१.

बला(ला-अ)विबला- -लयोः सावि १०.

बलातिबला(ला-अ)न्त- -न्तौ सावि १०.

बलग- बलय- द.

श्चला(क^१>)का^१-

बालाकि^१- -किः कौष्ठ, १-१७; १८^१. -०के कौ ४, १८^१५^१; १९.

बालाक्या(कि-आ)दि- -दिभिः शौ १, ३^१.

श्चला(क^१>)का^१- -का कालि ४०१: १०.

बलि^१।।- -लयः छां ५, १४, १; -लिः २ १; १५; -लिम् २२, ७; तै १, ५, ३;

११; -वत्सु महा ४, ३४; -वन्तः छां २, ३२, ५; वृता १, २०;

-वावृ छां ७, ८, १; त्रिमा २, १०३;

१४०; शि ३, ११; गी १६, १४.

बल-राम^०- -रौ रार २, १२.

बल-विकरण- -णाय मना २, १८९^०.

बल-हीन- -नेन सुं ३, २, ४.

बला(ल-आ)रोमय-विचर्धन- -नम् गोच ६८: १५.

बलिन्- -लिनाम् हे ११; -ली छां ७, ८, १; इ १२: १५.

बलो(ल-व)दि(त)वा- -वा महा ४, ६२.

श्चल^१-

बल-मुत्त- -ल छां २१६: १३.

श्चल^१-

बला^१- -ले सावि १०^१.

बला(ला-अ)विबला- -लयोः सावि १०.

बलातिबला(ला-अ)न्त- -न्तौ सावि १०.

बलग- बलय- द.

श्चला(क^१>)का^१-

बालाकि^१- -किः कौष्ठ, १-१७; १८^१. -०के कौ ४, १८^१५^१; १९.

बालाक्या(कि-आ)दि- -दिभिः शौ १, ३^१.

श्चला(क^१>)का^१- -का कालि ४०१: १०.

बलि^१।।- -लयः छां ५, १४, १; -लिः २ १; १५; -लिम् २२, ७; तै १, ५, ३;

a) व्यु. १ = वृत्तविशेष- । b) = वर्णविशेष- । वैप १ यद. । c) = वर्णविशेषवत्- । d) मा १६, ६ । e) शौ ५, २३, ४ । f) व्यु. १ = गोत्रप्रवर्तक-श्रुतिविशेष- । g) व्यु. १ = व्यक्तविशेष- । h) व^० इति निसा. । i) व्यु. १ साहचर्याय = जातिविशेष- । j) व्यु. १ = मयूरपिच्छ- । k) तस. । l) वय. । m) वैप १ यद. । n) तैआ १०, ६४, १ । o) श्र ६, १६, १० । p) पाण ३, १५, २३ । q) तैआ १०, १४, १ । r) तैआआ १०, २५, १ । s) तैआ ३, ३५, १ । t) शौ १२, ६०, १ । u) तैआ १०, ६३, १ । v) पाण २, २, ११ । w) तैआ २, १८, १ । x) शौ ८, ८५, ३ । y) विप. = बलवत्- । z) तैआ १०, ४४, १ । a') श्र १०, ११, २ । b') श्र १०, ८३, ५ । c') द्र. । d') श्रयः व्यु. च. १ = प्राणिविशेष- । e') व्यु. १ । f') व्यु. १ = देवीविशेष- । g') सङ्घट्ट प्राथिकपुत्रौ^१ काइइ इति लिपिप्रकारः इ. [वृ. आन.; वैत. निसा., अश्या., शाआ. (६, १९), J.C. धन्यदेव सन्तः सु-शोषाः] । h') लक्या^१ इति अश्या. ।

छां २, २१, ४; वृद्ध, १, १३; मनाद्, ६७^३; कौट, १^३; शिद्, २९^३.
 बलि-देवता- -ता भा ३.
 बलि-प्रदान- -नम् भ १, ३.
 बलि-वैश्वदेव-
 बलि-वैश्वदेव-बलिदानो(न-उ)-
 पसर्पण- -गैः सार २३१:१८.
 बलि-हरण- -गम् भा ३९.
 बलिन्- बलिष्ठ- बलीयस- १बल- द्र.
 ब(< > व^३) स्ति^१ - -स्ति: छां०, १६,
 २^१; १८, २.
 बहिस् (>: द, घ) क २, २९; १०; वृ
 ३, ९, २८, १; छ, ३, १२; खे ३,
 १८; गौ २, ९^०; १०^०; १४; मै ४,
 ५^१; मैत्रि ५, २^१; ना २; मना २,
 १३, २९^०; अशि १, ९; वृजाद्, १;
 पाशु १, १३; २, ५; वृष ५, २^१; ३६.
 बाह्य^३ - -ह्यः क २, २, ११; प्र
 ३, ८; आप्ये ९: १२; -ह्यम् प्र ३,
 १; वृध, ३, २१^३; नाद ३२; ३९;
 शां १, १^३; अज ५, २८; वै ४,
 १२; महाद्, ७३; छ, २४; १संन्या
 २, १३; जाद १, २०; ६, २२; वरा
 ५, ७२; वृष ८४: ११; १३; ८५:
 १; राधा २, ५; -ह्यत् शां १, ६;
 ७, ४३; जाद ६, १२; -ह्यत् वृ
 २, ४, ७-९; छ, ५, ८-१०; गौ २,
 १६; अज ३, ४; गी ५, २७;
 -ह्यानाम् महा ५, ३२; वरा ४,
 ८; -ह्यानि रूप ८५: १५; -ह्ये
 यो ३, १५; योशि ६, ७७; महा
 ४, ५१; जाद १, २२; वर ६, ७;
 -ह्येषु राधा २, १; भव १, २१.
 बाह्य-कर्म-विनिर्मुक्त- -क्ता:
 शि ४, ६७.
 बाह्य-धिया- -न्ता शां १,
 ७, २०; वरा २, ४४.

बाह्य-तस् (>) ई ५; गौ २,
 ३८; १योत ४४; कुं ११; पी
 ४२२: १४.
 बाह्य-दष्टि- -ष्टया अ-ध्या ५९.
 बाह्य-देवा(व-अ)भ्यर्चन-
 -नम् १संन्या २, ५९.
 बाह्य-देवा(व-अ)र्चन- -नम्
 नाप ७.
 बाह्य-देस- -शे सर ३, २९.
 बाह्य-दोष- -वै: क २, २, ११.
 बाह्य-प्रणव- -व: नाप ८, १.
 बाह्य-प्रतीति- -त्ते: सांस् १,
 ४२.
 बाह्य-प्राण- -णस्य अना ३३^१.
 बाह्य-बुद्धि-नियम- -म:
 सांस् ५, १२१
 बाह्य-मार्ग- -गंण यो २, ४०.
 बाह्य-वत् अता १०.
 बाह्य-वृत्त-वीथि- -ध्याम्
 त्रिवि ७, ४८.
 बाह्य-वृत्ति- -त्तय: नाप ५, १.
 बाह्य-शून्य-
 बाह्यशून्य-स्व- -स्वात्
 महा २, ५.
 बाह्य-स्थ-विषय- -यम् वरा
 ५, ५८^१.
 बाह्य-स्पर्श- -शेषु गी ५, २१.
 बाह्या(ह्य-अ)काश- -शम्
 जाद ८, १.
 बाह्याकान्त-धारण- -णम्
 शां १, ९.
 बाह्या(घ-आ)मन्- -त्मा
 प्रा २, १^४; २भा १^३.
 बाह्या(ह्य-अ)निल- -लम्
 जाद ८, २.
 बाह्या(ह्य-अ)न्त- -न्ते वर
 ५, ३१.
 बाह्या(ह्य-अ)न्तरीय- -यान्

वज ३, १४.
 बाह्या(ह्य-अ)भ्यन्तर (>:)
 बाह्याभ्यन्त- -करण-
 -णानाम् भा २८; २९.
 बाह्या(ह्य-अ)भ्यन्तर-
 लक्ष्य- -क्ष्यम् सं २, १, ३.
 बाह्या(ह्य-अ)भ्यन्तर- -रयो:
 सांस् १, २८; -राम्याम् सांस् १,
 ६३; -रे त्रिवि ३५.
 बाह्याभ्यन्तर-विषया-
 (य-आ)शेषिन्- -पी यो २, ५१.
 बाह्याभ्यन्तर-वीक्षण-
 -णात् वृज ९, ११.
 बाह्याभ्यन्तर-स्तम्भ-
 वृत्ति- -न्ति: यो २, ५०.
 बाह्याभ्यन्तर-स्थ-स्थो-
 म-पञ्चक- -कम् अता ७.
 बाह्या(ह्य-अ)भ्यन्तर-मन्व-
 (म >) मा- मासु प्र ५, ६.
 बाह्या(ह्य-अ)र्चन- -नम् मैत्रे
 २, २६.
 बाह्या(ह्य-अ)र्थ-वासनो-
 (ना-उ)द्भूत (>) ता- -ता
 महा ६, ५०.
 बाह्या(ह्य-अ)वष्टम्भन- -नेन
 मै २, २.
 बहि: -पूर्ण- -गं: मैत्रे २, २७; वरा
 ४, १८.
 बहि: -प्र(श >) श- -श: मां ३; वृष ४,
 ४; सुवा ५; राउ ३, १; वर १, ५;
 ५, ३४; -शम् मां ७; वृष ४, ७;
 नाप ९, २०; राउ ३, १; विद्या १;
 वर १, १२; ५, ३८.
 बहिर-अह्न- -ह्नम् यो ३, ८.
 बहिर-भन्तद्
 बहिरन्तद्-ज्वलन- -नम् पाशु
 १, १५.

a) तैश्चात्मा १०, ६७^१. b) प्रादेशिकोच्चारणभेदमाश्रयत्वेन निर्देयाः । c) =अभ्यम् । वेप १ वद. । d) वैट्. J.C. बहिष्ते इति । e) तैश्चात् १०, ११, २ । f) वैट्. J.C. °हियेँ इति । g) वैट्. J.C. °हिर्भो इति । h) पावा ४, १, ८५ । i) 'प्राणः मः इति ज्ञान. । j) स्वागतस्पर्श इति अश्या. । k) 'एवात्मा' इति ज्ञान. ।

बहिर-आरामन्-रमनःमै५, १; मैत्रि
६, १; रमा मै५, १; मैत्रि६, १
बहिरात्म(क>)की- बया
मैत्रि ६, १.
बहिर-दृष्टि-दृष्टिः सां १, ७, १४.
बहिर-धा- छां ३, १२, ७.
बहिर-भूपुर-वीथि-ध्याम् त्रिवि
७, ४८.
बहिर-मुख-खः अध्या ४८.
बहिर-लक्षित-कर्म-शिक्षा-ज्ञानो-
(न-उ)पवीत^b-तम् पत्र २.
बहिर-लक्ष्य-क्षयम् मे १, २, ८.
बहिलक्ष्य-लक्षण-णम् अता६.
बहिर-लक्ष्यमाण-शिक्षा-यज्ञो-
पवीत-धारण-णम् पत्र २.
बहिर-वासस-सः नाप ३, ३०.
बहिर-वृत्ति-पर-रः अक्षि ३६;
वरा ४, १५.
बहिन्-चित्-
?बहिश्चित्त(ः)>गौ २, १३.
बहिश्चित्त-त्ताः या २, २.
बहिः-शून्य-न्यः मैत्रे २, २७; वरा
४, १८.
बहि(स्य>)ष्ट^d-ष्टम् यो १, २४;
७३; जाद ४, ५८; सु २, २, ५२;
-छान् नाप ३, २६.
बहिष्पवमाल-नेन छां १, १२, ४.
बहिष्प्र(ज्ञा>)ञ-ञः गौ १, १०.
बहिष्प्रपञ्च-शिक्षा(खा-उ)-
पवीत-
बहिष्पञ्चशिक्षोपवीतिन्-
बहिष्पञ्चशिक्षोपवीति-
त्-रवम् पत्र ३.
बहिस्तन्तु-
बहिस्तन्तु-वय पत्र २
बहिस्त-ताप-वेन यो ३, ३०.

बहिस्-वीथे-धीव जाद ४, ५३;
-धीनि जाद ४, ५०.
बहिः-सङ्ग-ङ्गम् वरा २, ३६.
बहिः-सूत्र-त्रम् पत्र ३, १; ४; १४;
त्र २; नाप ३, ७७; ८०.
बहिः-स्थ-स्थम् सां १, ७, १४.
बहु^f-हवः क १, २, ३; ४; छां १, ५,
२; ४; ४, १०, ३; ७, १३, १; वृ
१, ४, १०; ६, ४, ४; मैत्रि ७, ५;
वसू १२; १६; १७; २१; त्रिवि
२५; १थोत १२३; त्रिमा २,
१४; ७५; त्रिवि ८, ४; इ १९ :
१३; राधा ३, १६; सार २४२ :
१६; २८६:८; व४३७:१११^h;
भव १, ५४; गौ १, ९, ४, १०;
११, २८; -हुⁱ तै २, ६, १;
३, ९-१०, १; छां ४, ४, २; ४;
५, १३, १; ६, २, ३; ७, ३; ५; ७,
१०, १; वृ ३, ८, १२; ५, १४, ८;
६, ४, ४; ते ४, २३; १थोत ५८;
शां ३, १; महा २, १७; ५, ७३;
७४; अद्रे १७; १८; गा १८;
-हुना क १, २, २२; सुं ३, २, ३;
रापू ४, ६६; योशि १, ५८; सूता
१, ४३; ६, १२; गोच ६८:२१;
सार २३१ : २१; २७३ : १०;
धी४२२:४; गौ १०, ४२; -हुभिः
क १, २, ७; वृ ६, २, २; मै ३, ४;
मैत्रि ३, ४; मैत्रे १, ३; लु ८;
रार २, १८; योशि १, ५२; इ
१८:२०; सं८; सां४, ९; -हुपु
वृ १, ४, १०; -हृन् क १, १, २३;
वृ ४, ४, २१; नाप ५, २२; अज
४, ३७; शा २३; वरा ४, ३३;
गौ २, ३६; -हृनाम् क १, १, ५;
२, २, १३; श्रे ६, १२; १३; त्र ३,

८; पि २, ५०; गोपू २०; यु ७०;
७१; व ४६० : १९^k; भव २,
४९; सां५, १०२; गौ ७, १९;
-हृनि वृ २, ५, १९; ३, ८, १०; ४,
३, १३; श्रे ५, १२; सुबा४; श १;
गो४, ५; ११, ६; -होः वृ ६, २, ७.
बहो-होः सुं २, १, ५; श्रे ४,
५^l; मै २, ६; मैत्रि २, ६; कौ
३, १; प्र १, १^m; -ⁿहोमीम् मना
२, १२, १; नापू ५, १२; -ह्यः
छां ६, २, ४.
बहु-कल्पना-प्रसक्ति-केः सां५
५, १२०.
बहु-काल-लम् सार २८५:१७;
-खाव सां५ ४, १९.
बहु-कृत्य-त्यम् १भव २.
बहु-क्षीर-यु(त>)ता-ताःशि ६,
१५९.
बहु-गुण-णम् सुसु १६.
बहु-जन्मा(न्म-अ)न्त-न्ते यो
२, ७.
बहु-जन्मा(न्म-अ)न्तर-रे यो ३,
२७.
बहु-जिह्वा-पाणि-पाद-शब्द-स्पर्श-
रूप-रस-गन्ध-चक्षुस्-
बहुजिह्वापाणिपादशब्दस्पर्श-
रूपरसगन्धचक्षुष्-म(त>)-
तो-ति व ४३१ : १९.
बहु-जीव-वः नि १८.
बहु-ज-ज्ञेन अज ३, ९; -चेपु मदा
४, ३४.
बहु-ता-ताम् १थोत ११०.
बहु-दंष्ट्रा-कराल-लम् गौ ११,
२३.
बहु-दक्षिणा>ण-णेन वृ ३,
१, १.

a) धा प्र. उसं. (पा ५, ३, ४२)। b) कस.। उप. समाहारे द्रस.। c) वैतु. सां. प्रश्न. बस. बहिश्चित्त->त्तः इति।
d) विसर्गयोपः (पावा ८, ३, २६)। e) °हिः-प्र° इति j.c.। f) वैप १ यद.। g) 'बहुलः' इति निसा.। h) ष्ट १०,
१०-१, १। i) या. क्रिवि. द्र.। j) 'द्वयभिः' इति अज्या.। k) ष्ट १०, ८४, ४। l) 'बहोमी' इति तैषा १०, १०, १।
m) शौ ६, ९६, १। n) तैषा १०, १०, १।

बहु-दामिन्- -यी छां ४, १, १.
 बहु-दिन- -ने अक्ष १, ९.
 बहु-दोषा(प-श्चा)श्रय- -यम् पैर, ८
 बहु-धा क १, २, ८; २, २, १२; प्र
 १, ४; सुं १, २, १, ९; २, १, ७; २,
 ६; छां ४, ३, ६; षे ४, १; ५, ३;
 ६, १२; गौ ३, २४; मै ४, ४, १३;
 मैत्रि ५, १; ऋवि १२; मना १, २५^०;
 २, २४^०; अना २१^०; वृउठ, ६;
 १योत १२; ५६; नाप ५, २८;
 ऋ३, ८; मं २, १, १; श १४; त्रिवि
 ७, ५; रार ५, २; मुद्र ३५^०;
 त्रिता ५, १२; कुं १४; म २, ६५^०;
 प्रा १, ५; गोपू १५^०; १२; आर्षे
 ९; १; वा२२; सुता १, ७; ३, १२;
 सु २२३; १६५^०; सं ६; शि
 ७, ८३; गु ४४; ७०; हे १०;
 अवि १२; सांका ७०; गी ९, १५;
 १३, ४.
 बहु-पङ्क-कलङ्कित- -नम् महा ५,
 ८३.
 बहु-पात्रय- -वयः छां ४, १, १.
 बहु-पुत्र-
 बहुपुत्र-ता- -ताम् मना २,
 ६३५^०; ६४५^०.
 बहुपुत्र-वत्- -वन्तःसुता १, २०.
 बहु-बाहु(हु-क)र-पाद- -दम् गी
 ११, २३.
 बहु-भया(व-अ)व(स्था>)स्थ-
 -स्थम् मै ४, २; मैत्रि ४, २.
 बहु-भाविन्- -पिणे मुद्र ४.
 बहु-भिन्न- -त्रे यो २, २०^०.
 बहु-भृत्य-
 बहुभृत्य-वत् सां २, ४.

बहु-भेद- -देन महा ५, २२.
 बहु-मत- -तः गी २, ३५.
 बहु-मार्ग-प्रवृत्ति- -त्तिम् पत्र २.
 बहु-योजन- -नम् ध्या १^१.
 १बहु-रूप-
 बहुरूपिन्- -पिणः शिद, १२४.
 २बहु-रूप- -पः मै २, ९.
 बहु-रोग-घ्न- -घ्नम् योशि १, ९२.
 बहु-ल, ला- -लः छां ५, १५, १^१;
 १८, २; -लम् आवो २८^३; राधा
 १, ४; -ला मना २, १५^०; २८५^०;
 गी २१; व ४६१; ११५^०.
 बाहुल्य-
 बाहुल्य^०- -ल्यः पं १९;
 तुअ ३.
 बहुल-वन- -नम् गी २१.
 बहुला(ल-श्चा)यास- -सम् गी
 १८, २४.
 बहु-वक्त्र-नेत्र- -त्रम् गी ११, २३.
 बहु-वक्ष- -क्षाणि १संन्या २, ९९.
 बहु-विद्- -वित् छां ७, ५, २.
 बहु-विष, घा- -धा सु २९४; ८;
 -धाः गी ४, ३२; -धैः राउ ५, २२.
 बहु-वास(>) मुद्र ४; सार २४१; १५.
 १बहु-शाखा^१- -खाः सी २०.
 २बहु-शा(ख>)खा^१- -खाः गी २,
 ४१.
 बहु-शाख-कथा-कथा-रोम-
 न्य- -न्येन मु २, २, ६३.
 बहु-शाख-गुरु(र-उ)पावन- -ने
 सां ४, १३.
 बहु-शाख-युत- -तः भव ५, २३.
 बहु-दोभमा(न>)ना- -नाम् के

३, १२.
 १बहु-श्रुत^१- -तेन सुवा ९.
 २बहु-श्रुत^१- -तम् नाप ४, ३४.
 बहु-संक्रमण- -गम् यो १, ५६.
 बहु-समय- -यम् पित्र १, ४.
 १बहुहृदयकमलमध्य^१- -ध्ये गोव
 ६६; २१.
 बहु/क
 बहु-कृत्य त्रिवि १, ५; ५, ४.
 बहु(हु-उ)दक^{१००}- -कः नाप ५, १^१;
 तुअ ६; १संन्या २, १३; पप
 ४१९; ११; शा ११^१; -कस्य नाप
 ५, १^१; ७^१; १संन्या २, ५९;
 -काः मि ३; आथ ४^१.
 बहुदक-व- -स्वम् तुअ ६.
 बहुदक-वनस्थ- -स्थयोः नाप
 ४, २३.
 बहु(हु-उ)दर- -रम् गी ११, २३.
 बहु(हु-अ)दुक्(र>)रा- -रा वृउ
 ९, ६.
 बहु(हु-अ)या(१पा^१)न-सहित-
 -सम् योच् ११४.
 बह्ना(हु-आ)नन-क(र>)रा- -नाम्
 सु ७३.
 बहु(हु-श्र)च- -चाः मन्त्रि ९; वृ ९.
 वां^१ सार २३२; १०.
 याट^१- -टम् नाप २.
 याण^१- -णः अध्या ५४; लि ३१०;
 १४; १६; आथ ३९८; ११; गम्
 ए ४; लि ३१०; २२; -नेन ते ६,
 ७७.
 वाण-वध- -वन्तो वृ ३, ८, २;
 -वान् नी २, १२५^०.
 बादरायण-, बादरि- ३बदर- ६.

a) तैत्ति १०, १, २ । b) तैत्ति १०, १६, १ । c) 'बहुधाः' इति ध्यान । d) तैत्ति ३, १४, १^१ । e) तैत्ति ३, १२, ३, ४ । f) तैत्ति १०, ६३ । g) तैत्ति १०, ६४ । h) 'अम्' इति अध्या. ? । i) तस. पूष. क्वि. द. । j) 'योजनान् पट्टन्' इति ध्यान । k) कग. । l) यत. । m) गहृन् 'अविद्याम्' इति अध्या. । n) श्र १, १८९, २ । o) तैत्ति १०, २१, १ । p) अतीत्याच प्र. द. । q) 'रूपम्' इति अध्या. । r) पा. ? । s) =संन्यासिभेदविरोध- । t) निजा. पा. ? दनि. शोधः द. (उ. अध्या.) । u) =बीजमन्त्रविरोध- । v) म्यु. ? क्वि. सतः अध्य. इति प्रसिद्धिः । w) =सार- । १व १ यद. । x) मा १६, १० ।

✓वाध्, > वाधि, वाधते अक्ष ५, १७;
 या २, १५; वाधते सार २९०:७.
 वाधयते योष् ५५; योशि १,
 ३९; ग १६; वरा २, ४९; सार
 २३१:९; सांस् १, ५९.
 वाध-धः प्रस् ३, ३, ४९; -धम्
 सिशि ३८०:८.
 वाध-दर्शन-नात् सांस् ५, ५३.
 वाधा(ध-अ)वाध-धात् सांस्
 ५, ५६.
 वाधा(ध-अ)र्थे--र्थम् महाष्ट, ९०.
 वाधिन्-
 वाधि-कर्म-व्यवहृति-
 -तिम् १अव २०.
 वाधक-कः पदं ४; अक्षि २१;
 -कम् व ४३६:९; -काः सार
 २७६:११; २८३:५.
 वाधका(क-अ)भाव-वात् सांस्
 ६, ५२.
 वाधमान, ना-ना ह १८५; -नौ
 सार २३१:८.
 वाधयितुम् अक्ष २, ४२.
 वाधित, ता-तम् त्रिवि १, १; ३,
 ३; ८, १५; -ता पाशु २, ४५.
 वाधिता(त-अ)नुवृत्ति-ते:सांस्
 ३, ७७.
 वाध्य-ध्यः अक्षि २१; -ध्यम् योशि
 १, ६०.
 वाध्यमान-नः सार २३१:८;
 -नम् सार २७९:१६.
 वाधिर्य-वधिर-द्र.
 वाध्योग-वध्योग-द्र.
 वान्धव-वन्धु-द्र.
 वाध्व-वधु-द्र.
 वाहृत-वृह-द्र.

श्याल, ला° - लक्ष दत्ता १, ७; -लः
 वृजा ६, १२; वृषू ५, १०; अक्ष
 २, ३०; १आ १०; रुजा ३, १;
 -लम् क १, २, ६; शां १, ६;
 -लाः क २, १, २; सुं १, २, ९;
 छां ५, १, ११; २४, ५; इ १२:
 १६; स्व ६१:१५; सि ७, १०-५;
 गी ५, ४; -लानाम् गौ ३, ८; ते
 १, २२; यो २, ४७; -लेषु अक्ष
 २, ३०; -लैः सि ७, १०४.
 बाल-क-कः नाप ३, २; महा ३,
 १; कृ १८.
 बालक-वत् नाप ५, २६.
 बाल-केलि-क्रीडा-डाम् सार
 २५२:२१.
 बाल-क्रीडनक-कान् शि ६, २०८.
 बाल-क्रीडा-डायाम् सार २६२:३.
 बाल-विण्डक-कम् शि ६, २२५.
 बाल-मूका(क-आ)दि-विज्ञान-
 -नम् अक्ष ४, ६०.
 बाल-मूलक-कम् शि ६, ८३.
 बाल-रूप-पाणाम् शि ५, ३.
 बाल-वत्स-त्सानाम् शि ६, २२५.
 २२६.
 बाल-स्वभाव-वः सुवा ६३.
 बाल-स्वरूप-पम् गौ ५६.
 बाला(ल-अ)क-कोटि-प्र(भ>)-
 भा-भाम् सौ ३, १.
 *बालि°-
 १ बालि-ना°-नाः गौ ४, ८३.
 २ बालिश°-शाः छाग २४:
 ३; १८, २५:७; ९; -शान् छाग
 २४:५; ६; ८; २५:१६.
 बालो(ल-उ)मत्त-पिशाच-
 बालोन्मत्तपिशाच-वत् तुअ २१;
 नाप ३, ८६; ५, १; मं ५, १, ७.

बालोन्मत्तपिशाच-वेष-पाप
 दत्ता २.
 बालो(ल-उ)न्मत्ता(त-आ)दि-
 सम-
 बालोन्मत्तादिसम-व-स्वम्
 सांस् १, २६.
 बाल्य-व्यम् वृ ३, ५, १; ते ४,
 २९; अक्ष ४, २८; शा २४; भव
 १, २१; -व्ये महा ६, २३; -व्येन
 वृ ३, ५, १; सुवा १३; अक्ष ४,
 ३८; शा २४.
 बाल्या(ल्य-आ)घ(दि-अ)-
 वस्था(स्था-अ)भिमाना-
 (न-आ)स्पद-दम् पै २, १८.
 बाल्या(ल्य-अ)व(स्थ>)-
 -स्था अद्रे ५.
 रयाल-वाल-द्र.
 रया(ल>)ला°-ला व १९.
 बालाकि-१ बलाका-द्र.
 बाहु°-हुभिः द ५; -हुभ्याम् श्वे ३,
 ३५; मना १, ३५; त्रिवि ६,
 १३; नी १, ४; २, ७५; क
 १३; यदः सु२९:२:२; शिसं
 २६; हुम्कौ २, ८; ९; ६५; ए
 १०; शि ७, ६६; हुवोः मना २,
 ७२; हु वृ ५, ५, ३; ४;
 वृजा ४, २६; सुवा १५; हुन् वृ
 ७०; होः रुजा १, १६; हो सु
 ५, १०; वृजा ६, १२; रुजा ३, १;
 कृप २१; राधा ३, ११; हो:
 वृजा ४, ३४; ७, ८; म २, ३;
 सिशि ३८२:४; वउ ३, ४८.
 बाहु-कृत-तम् वृजा ४, २४.
 बाहु-च्छिन्न-क्षः कौ ३, ३.
 बाहु-द्वय-ये वृजा ४, २१.

a) 'वध्यते' इति अख्या. । b) बोधा° इति अख्या. । c) अया° इति निशा. । d) अक्ष ३, ५३, १५.
 e) व्युः? यथा. द्र. । f) बल° इति आन. । g) भाप. । हः प्र. उरसं. (पा ५, १, १२४) । h) मरुवंशः प्र. उरसं.
 (पा ५, २, १००) । i) =ऋषिसहविशेष- । j) वस. सति बुद्धि- इत्यस्य विप. । k) व्युः? =देवीविशेष- । l) वैप
 यद्र. । m) अक्ष १०, ८१, २ । n) मा १६, १४ । o) 'बाहोः' इति शौ १९, ६० । p) अक्ष १०, ९०, १२ ।
 q) 'हुगोपी° इति सुग. यनि. बोधः द्र. ।

बाहुनाभिपीठप्रकृतिरूपक^१-कम्
लिं ३१०:२२.
बाहु-मध्य- -ध्ये वृजा ४,२८.
बाहु-मूल- -ले वृजा ४,२८.
बाहुमूल-परिचिह्नित-शङ्ख-
चक्र- -क्रा: सु २९४:१८.
बाहु-शोभा- -भाम् सार २४४:
२०.

बाहुल्य- बहु- द्र.

बाह्य- बहिम् द्र.

वि(<>वि^१)न्द्^{१०}- -न्दव: मैत्रि ६,
३५; -न्द्^{१०}ध्या २^१; १०५; -न्द्^{१०}:मै
३,२; ३१४; ५०८; ८५^१; ८६;
८८^१; योचू ५७; ५८^१; ५९; ६०;
६२^१; ६३; ८९; नाप ८, १; राउ
१,२; सी २०; योशि १, १२६;
१७०; ३, ११; ५, ७^०; २८; ३४;
६, ७२^१; ७३^१; यो ३, ५; ६; वरा
५, ५२; ग८; ता २, १; २; तु८;
स्व ६०: ५; नाप १, ११; व
४६६: २२; विया १; अद्वैभा४;
-न्द्^{१०}म्रवि ५४; सं २, ५, २;
योशि ६, ७५; यो ३, ८; १३; कृ
२१; वरा ५, ३७; वपू २, ४;
-न्दो: सी २०; गोपू २५; -न्दो
योशि ५, ४७; ५५ ४१९: २९;
सुसु ८.

बैन्द्य- -वम् त्रिता २, ९.

बैन्द्य-स्थान- -ने योशि ६,
१७^१; यो ३, ८.

बिन्दु-कोटि-शत- -तानि नाद ५०.

बिन्दु-क्षय- -य: १योत ६१.

बिन्दु-नात- -तम् वरा ५, ७०.

बिन्दु-द्रव्य- -यम् योचू २८.

बिन्दु-धारण- -णात् १योत ६२.

बिन्दु-नाद-कला- -ला: योशि ६,
७०.

बिन्दुनादकला(ला-श्रा)ध्र-
(य<)या- -या अन्न १, ४.

बिन्दु-नाद-कला-ज्योती(<तिस्)-
रवी(वि-इ)न्द्-भुवत्तारक- -कम्
योशि ६, ६६.

बिन्दु-नाद-महा-लिङ्ग^१- -ङ्गम्
योशि १, १६७; ५, ४^१ b.

बिन्दु-नाद-शिर:- -शिखा- -खा सु
१, १, ३१^१.

बिन्दु-नाद-समायुक्त- -क्तम् जाद
५, ८.

बिन्दु-नादा(द-श्रा)त्मक- -कम्
रार ५, ८.

बिन्दु-पीठ- -ठम् योशि २, १३.

बिन्दु-पूर्ण-ज्योति:स्थान- -नम्
त्रिता २, १७^१ k.

बिन्दु-पूर्वक- -कम्^१ राउ १, २.

बिन्दु-मध्य- -ध्ये योशि ६, ४९;
जाद ५, ६^१ m; वरा ५, ३२.

बिन्दुमध्य-गत- -तम् व ४६६:
२२.

बिन्दु-म(य<)थी- -थी योशि ६,
४९.

बिन्दु-मूल-शरीर- -राणि योचू
५६.

बिन्दु-मेलन-रूप(>)पा- -पाम्
कालि ४०१: ३.

बिन्दु-मौलि-

बिन्दुमौलि(न<)नी- -नीम्
सुसु ४.

बिन्दु-युक्त- -क्तेन जाद ६, ४१.

बिन्दु-रूप- -पम् १योत ९९; योशि
५, २७; त्रिता २, ६८; -पस्य
वरा ५, ५०; -पेण योशि २, १२.
बिन्दुरूपि(व<)णी- -णी योशि
३, २.

बिन्दु-स्थान- -नम् योरा १५.

बिन्दु-स्वरूप- -प: ता ३, ४; ८.

बिन्दु-ही(न<)ना- -ना त्रिता १,
५९.

*विभया- √भी द्र.

?विभ्रवा^१ सु २९४: ५.

विभ्रत्- √भी द्र.

विभ्रत्-, विभ्रान- √मृ द्र.

विम्ब^{१०}- -म्बम् ये २, १४; योचू ९;
९६; योशि १, १७७, ५, १४; त्रि
११^१ p.

विम्ब-प्रतिविम्ब-दर्शन- -नेन
अन्न १, १६.

विम्ब-वत्- -वन्तम् पा७, १०; ८, ५.

विम्बा(म्ब-श्र)घर- -र: सार
२४४: १७.

विम्बित- -त: सार ३, १४.

विम्बो(म्ब-श्रोष्ठ<)ष्टी- -ष्टीम् रा
४२४: २१.

विल^{१०}- -लम् छां ३, १५, १; अना
२१; -ले स ३७९: ९.

विल-प्रवेश-

विलप्रवेश-तस(>) यो १, ४६.

विला(ल-श्र)न्त- -तम् चक्र ७.

विल्व^{१०}- -ल्वम् वि ३२; -ल्वेन वि६.

वैल्व- -ल्वम् आरु ५; वि १४.

विल्व-क- -क्तेन वि३१; -कै: शि ६,
१२९.

विल्व-दल- -लै: म २, २०; २४.

- a) वा. अथप्रहृथ १। b) प्रादेशिकोच्चारणभेदमात्रत्वेन निर्देशः। c) वैपश् यद्र.। d) 'बिन्दुम्' इति निसा, अश्या. संति.। e) 'हंसः' इति निसा. संति.। f) 'चैन्द्र' इति निसा. यनि. शोधः द्र. (द्र. अश्या.)। g) वत.। h) 'किल्प्रबिन्दु' इति मुपा. यनि. शोधः द्र.। i) तत्तदाख्योपनिषदां द्रस. गभितः मलो. कस.। j) 'न्दुः मा' इति निसा.। k) 'णी ज्यो' इति शोधपरं पदद्वयं वा द्र.। l) या. क्रि. द्र.। m) 'मध्यतुरीयकम्' इति अश्या. संति.। n) पा. १ 'विभ्रवा^१ > -न्वा इति शोधः द्र. (द्र. मृ ९, १६, १९)। o) श्यु. १ मया. द्र.। p) स्तनवि' इति निसा. पा. १ यनि. शोधः द्र. (द्र. तान्त्रि.)। q) एतथात्रिंशद्दृष्टे वा तरफले वा श्रुतिः द्र.। वैपश् यद्र.।

विल्वदल-माला-रुपा वउ ६, ४४.	भव ३, ११; पित्र १, १५; १५ ^१ ; वउ ६, ३३; गौ ७, १०; ९, १८; १०, ३९; -जस्य मैत्रि ६, १०; ३१; -जाव गौ ४, ५९; -जानाम् ह ९; -जानि ऐ ५, ३; छां ६, ३, १; अद्वैता ११; -जे अन्न ४, ४१; मु २, २, २७; ४८; -जेन सु ४; -जे: रार २, २३.	बीज-वाप ^१ - बैजवापि ^१ - बैजवापावन ^१ - न: नाव वृ २, ६, २.
विल्व-पत्र-प्रम् वि ८; १७; -प्रेण वि २; -प्रे: रार २, ३४; वि ७; १७; १८; २०; शि ४, ६०.	बीज-जाप्रत्-प्रव महा ५, ८ ^१ ; १११ ^१ .	बीज-शक्ति-क्ति: रार २, ११६; सौ १, २; सर २, १-१० ^१ ; -किम् रापू ४, ४ ^१ ; -क्ती रार २, २२.
विल्वपत्रा(त्र-अ)पि(त>)ता- -००ते त्रिता २, ७०.	बीज-जाति-तय: शि ४, ४६.	बीजशाक्त्या(कि-आ)दि-दप: रार २, २८.
विल्व-पूजन- विल्वपूजन-तस्(>) वि २१.	बीज-जाति-तय: शि ४, ४६.	बीजशाक्त्यादि-बीज-जेज रार २, ३.
विल्व-प्रि(य>)वा ^१ -या सौ १, ३.	बीज-तुल्य- बीजतुल्य-स्व-स्वात् गर्भ ३.	बीज-सप्तक-कम् कालि ४०१: ४.
विल्व-फल-रुम् महा ५, १५४.	बीज-त्रय-यम् तारा ८४: ३; ४.	बीज-संभव-वा: मैत्रि ६, १०.
विल्व-मूल-ले जाव ५, ४.	बीज-प्रया(य-आ)त्मक-कम् योशि ६, १५.	बीज-सागर-रूप-पम् त्रिता २, २.
विल्व-वृक्ष-क्ष: वि २.	बीज-स्व-स्वम् भव १, २९; -स्वात् वृउ २, ५-७.	बीज-स्थ-स्थम् दत्ता १, २.
वि(<>वि ^१)स् ^१ - विस-च्छेद-दाव् अन्न ४, ८४; गु २, २, १३.	बीज-द्वीप-पा: राउ ५, २५.	बीज-शा-स्थम् दत्ता १, २.
विस-तन्तु-न्तुभि: सु २, २, ४७.	बीज-ध्याना(न-आ)दिक-कम् रार २, ९०.	बीजा(ज-आ)कर्पि(र>)णी-णी आथ ३९५: १२.
विसतन्तु-नि(भ>)भा-भा ध्या १०१ ^१ ; यौ १, ८२.	बीज-विदा-युत-त: गौ १, १२.	बीजा(ज-आ)क्षर-रम् ध्या २ ^१ ; ह ९; -रेण ह ९.
श्वी(<>वी ^१ ज ^१ -जम् वेद, १२, हं १०; मैत्रि ६, १०; उपू ३, १५; शु १, १८; २, ५ ^१ ; ध्या ९५; त्रिवा २, ८; त्रिवि ७, ४८; रा २२, ३०; ४२; ५२; ६१; ८२; ९५; ९९; १०३; ५, ६; ८; ११; रापू ४, ४१; ४३; ५६; महा ५, १८०; योशि ६, १२; १९न्या २, ८८; ९१; अन्न ४, २९; ४०; ६८; ९, ७०; व २; त्रिता ५, २१; दे ११; रुह ८; ह ६; दत्ता १, २; ४-६; ३; सौ १, १; सर १, ४; इ १३: ९; सूता १, ३० ^१ ; तुल ७०: २; नापू ४, १७; वृप ८४: १२; लां २१३: ३; शि ६, ४०; ४१; कालि ४०३: १२; गु ७०; ८१; व ४२६: ३; ४५९: १७; ताव ८३: १४.	बीज-न्यास-स: सूता ३, १२.	बीजा(ज-आ)क्षर-रम् ध्या २ ^१ ; ह ९; -रेण ह ९.
	बीज-यूर-रेपु शि ६, १४.	बीजा(ज-आ)हुर- बीजाहुर-क्रम-म: मु २, २, २६
	बीज-प्रद-द: गौ १४, ४.	बीजाहुर-वत् सांव १, १२२; ५, १५; ६, ६७.
	बीज-भाग-गम् ह १३: ९.	बीजाहुरा(र-आख्या>)ष्य- क्य: गौ ४, २०.
	बीज-मि(अ>)धा-श्रवा सर १, २.	बीजा(ज-आ)क्षर-द्वयम् गोपू १८; शपू ५, ४.
	बीज-मुद्रा ^१ -मुद्रा कृता २, ४४; -द्रा आथ ३९४: १८; ३९९: ३.	बीजा(ज-आ)क्षर-क: योशि ६, १२; रापू ४, ३; -कम् वपू २, ४.
	बीज-यन्त्र-नामन्-मानि व ४३२: ३.	बीजा(ज-आ)दिक-कम् रार २, ७४; -कान् रापू ५, ३.
	बीज-सु(त>)ता-ता यो २, ३७.	बीजा(ज-आ)ध-घा: सावि १०; रार २, ७१.
	बीज-योनि-नि: रुह ८.	बीजा(ज-आ)ध(दि-आ)न्त- राव-त: रार २, १८ ^१ .
	बीज-रूप-स्थित-तम् महा ५, ११ ^१ .	
	बीज-वत् सांव १, १०.	

a) प्रादेशिकोचारणभेदमात्रत्वेन निर्देशः । b) वैश्वं यद्र । c) पद्यत^० इति निमा., अथ्या. संदि. ।

d) ०जं जा^० इति निमा. यनि. सोध: द. (तु. अथ्या.) । e) ०वं स्थि^० इति अथ्या. । f) ०गोत्रप्रवर्तक-श्रमपिधिशेष- ।

g) ०शक्तिम् इति अथ्या. । h) ०किहीलकम् इति अथ्या. । i) ०क्ती इति ज्ञान., अथ्या. संदि. । j) ०राव इति

आन. । k) ०न्तग^० इति अथ्या. ।

बीजा(ज-अ)न्तर- -र रापु ४,४२.
 बीजो(ज-उ)क्त- -क्तम् रा ५,१०.
 बीजो(ज-उ)द्धार- -रम् सुता ६,१.
 बीजो(ज-ऊ)र्ध्व-भाग- -गे रा २३,१
 धीजवाप- १बीज- द्र.
 १२वी(ज>)जा^१- -जा त्रिता ३,१६.
 बुद्धिल^१- -लः छां ५, ११,१; -लम्
 छां ५,१६,१; वृ ५,१४,८; गा
 २५१^०.
 बुद्बुद्वा^१- -दः निर १,९; -दम् गर्भ
 ३; गार ४०५:५; -दाः मन्त्रि १८;
 चू १७; १८; -दाव गार ४०५:
 ६; -दैः आच ५; शि ६, १३७.
 बुद्बुद-ता- -ताम् योशि १,१६५.
 बुद्बुदा(द-अ)दि-विकारा(र-अ)-
 न्त- -न्तः आवो १५.
 √बुध>बोधि,बोधत पा ७,४.
 बुध्यते गौ १, १६; २, ११; १२;
 योशि ६, ६८; बुध्यति गर्भ १;
 नाप ६,१; अबुध्यत गोपु २५;
 बुध्यते योशि १,७८^०.
 बुधधरे वृ ६, १; बोधि मना
 २, ११^१; व ४४०:२३१^१; ४४६:
 ६१^१; ४५१:३१^१; ४५४:१०१^१;
 ४६०:१०१^१.
 बुध्यते सर ३,१०; बुध्यन्ते गौ
 ४, ९८.
 बोधयति मैत्रि ६,१७; बोधय
 ते ५,८०; महा ३,५६; बोधय-
 बोधय ह ५; बोधयतीत मै ५,४;
 बोधयेत् वृ ४,३,१४; महा ५,
 १०४; योशि १,११३.
 बोध्यते अज ४,४३.
 १बुध- -दः हं २१; वृ २९,८; १०;
 ते ३,४२; प्रवि १०२; अज १,

३४; ५, ९३; अक्षि १९^१; -दम्
 वृ २,१७; शु २,५; ते ६,७०;
 योचू ७२; अथा ६३; -दस्य
 गौ ४, ९९; -द्धाः गौ ४, ९८;
 -द्धानाम् गौ ४,८०; -द्धाय नाउ
 २,४; -द्धैः गौ ४, १९; ४२; ८८.
 २बुद्ध^१- -द्धेन गौ ४, ९९.
 बुद्धा(द-अ)वतार- -रः नापु
 ५,८; -राय नापु ५, ११.
 बुद्ध-मुक्त-स्वभाव- -वः मैत्रे
 १, ४, ११.
 बुद्धा(द-अ)रमन्- -रमा ते ४,
 ६८.
 बुद्धा(द-अ)न्त- -न्तम् वृ ४,३,
 १८; -न्ताय वृ ४,३,१६; ३४;
 -न्ते वृ ४,३, १७.
 बुद्धि- -द्वयः मै ५,७; मैत्रि ६,७;
 त्रिता १,३२; रह ३००; गी २,४१;
 -द्धिः क १-२,३,१०; प्र ४, ८;
 गौ २, २५; मै ५, ५; मैत्रि ६,
 ५; ३०; हं ८; गर्भ ३^१; सुवा
 ५; ६; ७^१; १४^१; ससा १,१८;
 १९; ४३; ते ३, ४५; ४, ७; ५, ७६;
 ९४; ९६; ६, ३२; ७, ९३, १३;
 १योत ६^५; नाप ५, १; ६, १^१;
 त्रिमा १, ९; त्रिवि ५, ४; पै २,
 २२; ४, ११; महा १, १; ५,
 १२५^१; १३०; योशि १, ३९;
 शारी १; ६; १संन्या २, ३९;
 अध्या १^१; प्रा ४, १; कृ २^५; वरा
 १, ४; ४, २५; ४३; अद्वै ५^१;
 ६^१; पा २, ७; राधा २, ८; लि
 ३०९: १-३; वड ३१५: २; शि
 १, ११; यु ४१; १कौल २: १;
 २कौल १; २: ५^१; भव २, २०;

२२; २७; ३, १८; पित्र १, १५;
 वपु २, ४; सांस् २, १३; सांका
 २३; ३५; ३७; गी २, ३९; ४१;
 ४४; ५२; ५३; ६५; ६६; ३, १०;
 ४०; ४२; ७, ४; १०; १०, ४; १३,
 ५; १८, १७; ३०-३२; -द्विम् क
 १, ३, ३; सुवा ७; ९^१; पै २, २५;
 ४, १; अध्या १; ए १४^१; यो २, २;
 पी ४२२: ३; व ४३६: १२,
 १४; भव २, १०; गी ३, २; १२,
 ८; -द्धेः क १, ३, १०; थे ५, ८;
 शारी १; वृ २, २; ३; शु ३, ३;
 १आ २९; अज ४, २३; वरा
 २, ६०; ६१; यु ४१; भव ४, ४;
 सांस् २, ४७; सांका ४९; गी ३,
 ४२; ४३; १८, २९; -द्धौ सुवा
 ५; सांका ३६; गी २, ४९; -द्ध्या
 क १, ३, १२; थे ३, ४१^१; ४, १;
 १२१^१; गर्भ १; अशि ५, ६; १८;
 ते ५, ४१; ४६; ८५; ९, ९३,
 १४; नाप ६, १^१; महा २, १२;
 १७^०; ५, ८४; ६, ४३; ४४; योशि
 ६, ६७; १संन्या २, ४०; वरा ४,
 ११; निर १, १४; वड ३१७:
 ७; यु ५६; गी २, ३९; ५, ११;
 ६, २५; १८, ५१.
 बुद्धि-कर्मेन्द्रिय-प्राणपञ्चक- -कैः
 शारी ५.
 बुद्धि-क्षोभ-निवृत्ति- -तिः
 जाद १, १७.
 बुद्धि-गुहा- -हायाम् मं १, ४, १.
 बुद्धिगुहा-निहित-चिन्त-
 ज्योतिस्व- -तिः अता १३^१.
 बुद्धि-प्राज्ञ- -ज्ञम् योशि ३, १५;
 गी ६, २१.

a) नैत्र. =द्विती(य>)वा- । b) स्युः? =अधिविद्योप- । c) 'बुधिलम्' इति पा. ? यनि. बोधः द्र. (द्र. नापु.) । d) वैपरी यद्र. । e) 'बोद्धस्यम्' इति आन. । f) अ ५, ४, ९ । वैतु. नाशो., j.c. बोधिन्-> -धी इति । g) अ १, २४, ११ । h) अ १०, ८३, ६ । i) 'बुद्धः' इति निशा. संटि. । j) =शाक्यमुनि- । k) 'इक्षरम्.' इति अग्न्या. । l) गपु. (पृ २०३) सस्य. एकता-> -ता इत्यनेनाऽस्य स. द्र. । m) 'बुद्धिमसु' इति निशा. संटि. । n) 'रमत्या' इति तैसा १०, १०, ३ । o) 'बुद्ध्या' इति अग्न्या. । p) 'हितज्यो' इति निशा. ।

बुद्धि-ज्ञाना(न-आ)धित- -तेन
सुवा ९.

बुद्धि-सद्वृत्ति-साक्षिन्-
-क्षिणम् अप्या २.

बुद्धि-नाश- -शः, -वात् गी २,
६३.

बुद्धि-निर-मल- -लम् तु ११.

बुद्धि-पूर्व- -वैम् मे २, ५^{१६}; राउ
५, १८; २०; २३.

बुद्धि-प्रकाश- -शः अद्वै १४.

बुद्धि-प्रतिबिम्बित- -चैतन्य-
-न्यम् त्रिवि ४, १४.

बुद्धि-बीज-समन्वित- -तम्
महा ५, १५३.

बुद्धि-बुद्धि- -द्वेः योषु ४, २०.

बुद्धि-भेद- -दम् गी ३, २६.

बुद्धि-मत्- -मता १योत ७५;

-मताम् ए १४; गो७, १०; -मान्
अना १६; आबो १७; १योत

७६; नाप ३, १६; रा २, २९;

योशि ५, ३५; ए १४; जाद ६,
९; ३९; ४१; ८, ८; वि ६; गी

४, १८; १५, २०.

बुद्धि-युक्त- -क्तः गी २, ५०;

-क्ताः गी २, ५१.

बुद्धि-योग- -गम् गी १०, १०;
१८, ५७; -नात् गी २, ४९.

बुद्धि-रूपक- -कम् ते ३, ४८.

बुद्धि-बध- -धैः साक्षा ४९.

बुद्धि-विज्ञाना(न-आ)विर्भाव-
-वः त्रिवि ५, ९.

बुद्धि-विलय- -ये वरा २, ५९.

बुद्धि-वृत्त- -त्तस्य मैत्रे १, ४, ८^७.

बुद्धि-स्थाधि- -धिम् ते ३, ६४.

बुद्धि-शालाका- -क्या महा ६,
३२.

बुद्धि-धुन्य- -न्यम् सौ २, १७;

सु २, ३, ५५.

बुद्धि-संयोग- -गम् गी ६, ४३.

बुद्धि-सख्य-बलो(ल-उ)साह-
विज्ञानै(न-ए)धर्य-संस्थित-

-तः महा ५, १५७.

बुद्धि-साक्षिन्- -क्षिणम् पं १४;

-क्षिणे गोपू १.

बुद्धि-सारा(र-अ)न्तरा(र-अ)-
न्तर- -रम् महा २, ३६.

बुद्धि-सूक्ष्मतस(ः) योषु ८१.

बुद्धि-स्थैर्य- -र्यम् मं २, १, ९०.

बुद्धी(दि-इ)न्द्रिय- -याणि मै

२, ९; मैत्रि २, ६; गर्भ ५; प्रा ४,
१^१; भव २, १६; सांका २६; ३४.

बुद्धीन्द्रिय-नियन्तृ-

. बुद्धीन्द्रियनियन्तृ-त्व-

-वात् नि १६.

बुद्धीन्द्रिया(य-अ)भिधान-

-नानि अन्न ३, ७.

बुद्धय(दि-अ)न्त- -स्थ- -स्थः
मैत्रि ६, ३४.

बुद्धय(दि-अ)भाव- -वात् ते

५, २०.

बुद्धय(दि-अ)र्थ- -र्थः वसु ३, २,
३३.

बुद्धया(दि-आ)कपि(न्)गी^१-
-गी आद्य ३९५ : २.

बुद्धया(दि-आ)दि- -दीनाम्

ससा २; -दीनि मैत्रि ६, १०.

बुद्धयादि-नित्यत्व- -त्वम्

सांस् ५, १२७.

बुद्ध्या गौ ४, ७५; व्रवि २९; महा

२, १८; पप ४१८ : ६; वरा २,
२६; पा २, ७; गी ३, ४३.

बुद्ध- -धः व २; ३, १६; पत्र

३, १; अना २२; वृजा ४, १७;

ते १, २०^६; नाप ३, ५; ७७; ५,

२६; ६, ३६; योशि १, ८०;

१संन्या २, ११; त्रिता ५, ९; यो

१, ७; ६१; जाद ५, ८; ६, ५; गोउ

३५; योरा १०; इ १६; १; शि

२, २४; ३, १३; ५, ४९; ६, १६३;

७, ६; ५५; ७१; तारा ८४:

१०; अवि ९; चू १८; गी ५,
२२; -घाः महा २, १०; ५, १२६;

अन्न २, ३४; ५, ३३; नाद ७;

जाद १, ११; २, ९^६; वरा १, ६;

सु २, २, १६; गी ४, १९; १०, ८;

-०घाः वृजा ५, १०; -धैः ते १,
१८; त्रिवा २, २८; वरा २, ५१;

महा ४, ४५; ५, २७; योशि ४,
२२; अन्न १, ४८; यो १, ६१;

रुजा १, ७; जाद २, ३; ४, २०;

वरा २, ५९; ४, ३; ५, ७४; सु २,
२, ६२; २अव ३३७ : ३; भव

३, १२; ४, ६.

बुद्ध^१- -घाय व ४३७ : १२.

बोद्धव्य- -व्यम् प्र ४, ८; सुवा ५,
६; ९^१; नि ४; रह ३७; गी ४,
१७^१; -व्ये सुवा ५.

बोद्धुम् क २, ३, ४.

बोद्धृ- -द्धा प्र ४, ९; द्वां ७, ८-९, १;
२आ २.

बोध- -धः ते ४, १५; आबो २९;

महा ४, २६; अप्या २८; वरा ४,
२३; सांस् १, ६०; -धम् ध्या

६९; योषु ४०; अप्या ४०;

-धस्य महा ४, ७८; अप्या २८;

४१; -धे महा ४, ११५; -धेन

महा २, ३८.

बोध-कल्पतरु- -रवे त्रिवि ७,
४३.

बोधकल्पतरु-वन- -नैः सि

२, १०.

a) वा. किवि. प्र. । b) ०न्द्रि० इति अस्या. । c) बायुर्द्वे० इति निसा., अस्या. संदि. । d) 'इन्द्रियाणि'
इति अस्या. । e) विसर्गलोपः (पावा ८, ३, ३६) । f) 'निर्दिशेत्' इति आन. । g) 'जडेः' इति अस्या. । h) ०धः
इति अस्या. । j) =प्रहविरोध- ।

बोध-चन्द्रमस- मसि वरा २,
७४.

बोध-ज->जा-जाअत्र १, २६.

बोध-मय- -यः मैत्रे २, १३.

बोध-रूप- -पस्य नाप ६, ११.

बोध-स्वरूप- -पः अध्या ६२.

बोधा(ध-आ)नन्द-

बोधानन्द-तरङ्गिणी- -ग्याः

त्रिवि ६, २२.

बोधानन्द-मय- -यम् जाद

८, ७; -यात् त्रिवि ६, २१; -यैः

त्रिवि ६, २३; सि ६, ३३.

बोधानन्दमया(य-अ)-

नन्त-दिव्य-तेजोराशिविशेष-

चैतन्य-प्रासाद- -दैः सि ६,

१४.

बोधानन्दमया(य-अ)-

नन्त-भूपदीपा(प-आ)वलि-

-लिभिः त्रिवि ७, ५०.

बोधानन्दमया(य-अ)-

नन्त-परम-च्छत्र-ध्वज-चामर-

वितान-तोरण- -गः त्रिवि ६,

२३; सि ५, १२.

बोधानन्दमया(य-अ)-

नन्त-परम-विलासविभूति-

विशेष-समष्टि-मण्डल- -लम्

त्रिवि ७, २०.

बोधानन्द-महो(हा-उ)-

ज्वल- -लम् त्रिवि ७, १९; सि

६, ५.

बोधानन्द-नन- -नम् त्रिवि

६, २३.

बोधानन्द-विमान-परंपरा-

-रासु त्रिवि ६, २१.

बोधानन्द-वैषुण्ड- -ण्डम्

त्रिवि ६, २४.

बोधानन्द-स्वरूप- -यम्

त्रिवि ७, ५०.

बोधानन्दा(न्द-अ)चलो-

(ल-उ)परि त्रिवि ७, २३.

बोधानन्दै(न्द-ए)क-मूर्ति-

-र्तिः आत्रो १०.

बोधा(ध-अ)बोध-स्वरूप-

-यम् ते ५, ८३.

बोधक- -कः ब्रवि ५१; ५२; वि २६.

बोधयत्- -यन्तः गौ १०, ९.

*बोधया-

*बोधयां/कृ, बोधयांचकार वृ

२, १, १५,

बोधित->ता- -त्वा त्रिना २, ६५;

-ते वरा २, ७०.

१-२ वृध- / वृध् द.

वृध्^१-

वृध्ति(य->)या- -^१याः मना १,

१०; २सिंसं ३२.

वृध्(न्य->)न्या- -ध्याः २संन्या

१६; ७१.

वृध्मुत्ता- / वृध् द.

वृध्-वृध् सार २६० : २१.

/ वृध्, > वृध्ति, वृध्ति भशि ७, १४;

अ २; शां ३, १; वृध् ३, १६; ७;

वृध्पेत वृजा ३, १७.

वृध्ति-

वृध्ति(त-आ)कार- -रम् अष

२, ३७.

१ वृध्(<>वृध्)-वृध्- -न्दानि सार

२७६ : २२.

२ वृध्(<>वृध्)-वृध्- -न्दा राधा १,

२३; सार २६३ : २२.

वृध्दा-नामन्- -ना सार २२३ : १८

३ वृध्(<>वृध्)-वृध्- -न्दा^१-

वृध्दा(न्दा-अ)वृध्- -वृध्दावृध्-विहारिन्- -रिणे

सार २४७ : १०.

वृध्दा-यत्- -नम् सार २२१ : १३;

१४; २२७ : २३; २३३ : ६;

२४६ : ७; २५९ : ७; २८६ : ५;

-नम्-नम् सार २५९ : ४; -ने

सार २२१ : २१; २३३ : १; २४६ :

२१; २४७ : १६; १९; २५५ :

१५; २५९ : ११; १९; २६० : ५;

१०; २८९ : ८.

वृन्दावन-निवासि(न्->)नी-

-०नि तुल ७१ : ८.

वृन्दावन-वृद्धि- -द्ध्या सार

२३२ : १७.

वृन्दावन-माहात्म्य- -त्म्यम्

सार २५९ : १६.

वृन्दावन-रहस्य-मार्गा-

(र्ष-अ)नुसार- -रेण सार

२३६ : २१.

वृन्दावन-लीला- -लायाः सार

२५९ : ३.

वृन्दावनलीला(ला-उ)पात-

क- -काः सार २३५ : २२.

वृन्दावन-वासिन्- -सिनाम्

सार २५९ : १३.

वृन्दावन-विहारिन्- -रिणे सार

२६० : २२.

वृन्दावन-शशि(न्->)नी-

-नीम् सार २३२ : १०.

वृन्दावन-शोभा- -भाम् सार

२३२ : २०.

वृन्दावन-सुर-भूह-तला-

(ल-आ)सीन- -नम् गोपू ३३.

वृन्दावने(न-ई)ध(र->)री- -री

सार २५२ : २१; २६४ : २१;

२६७ : २२; -नीम् सार २७३ :

१९; -यां सार २५२ : १५;

२५८ : १८; २५९ : १२; २६१ :

१८.

वृन्दावनेधरी-नित्य-की-

दा-प्रधान- -नम् सार २५३ :

१७.

०) वे ११ यद. । b) 'वृध्याः' इति मा १३, ३ । c) मा १३, ३ । d) वृ. गृ. २३३c । e) प्रादे-
विशेषाण्येदमाप्रत्यये निर्देशः । f) वृ. ? = समूह- । g) वृ. ? = गोपीविशेष- । h) वृ. ? = तुलनी- ।

वृन्दावनेश्वरी-रूप- -पम्
सार २५९: २३.
वृन्दावनेश्वरी-समनुगृहीत-
-ता: सार २५५: ६.
वृन्दावनो(न-उ)क-सागं- -मं:
सार २३४: २३.
वृन्दावनो(न-उ)न्नय- -वा: सार
२५९: ९.
वृन्दावनो(न-उ)पासक- -क:
सार २५९: ८.

वृहजायाल-ताप(न>)-
नी^१-नी सु १, १, ३२.
वृहजायाला(ल-अ)भि-
(ध>)घा- -भाम् वृजा १, १.
वृहजायालो(ल-उ)पनिप-
ज्-अप-शील- -लस्य वृजा
८, ६.
वृहजायालो(ल-उ)पनिपद्-
अप्यपक- -केन वृजा ८, ६.
वृहत्-तिथि- -धि(िमी)दि १०.
वृहत्-त्व- -त्वात् वृत् ९, १०.
वृहत्-ससि- -त्वा इ ११: ५.
वृहत्-से(ना>)न^१- -ना, -नाय
गृ १; व ४६५: २.
वृहत्-स्कन्ध- -न्धम् गृ ५.
वृहद्-आरण्यक^१- -यम् सु १,
१, ३०.
वृहद्-भानु^१-
वृहद्भानु-जाया^१- -याम्
काति ४०१: ४; श्या ४.
वृहद्-रथ^१- -थ मै २, १;
मैत्रि १; मैत्रे १, ४, १; -थ: मै
१, १; मैत्रि १, २.
वृहद्-रूप- -रणे नि १२.
वृहद्-वन- -नम् गोउ २१; सार
२२१: १२; -ने सार २६०: ६.
वृहद्-वसु-
वृहद्भसु-श्रेष्ठ- -ष्ठ: सार
२५२: १०.
३वृहत्^१- -हत् छां २, १४, १;

२; मैत्रि ७, २; मना २, ७९४;
मन्त्रि ९.
वृहत्-सामन्- -म गी १०, ३५;
-सि चू ९.
वृहद्-रपन्तर- -रे कौ १, ५;
गृ ११४.
३वृहत्^१-
१वृहती^१- -ती छां १, २, ११;
वृ १, ३, २०; रार २, ६०; सी १, १;
गार ४०७: १६; ताद्रा ८३: १४.
बार्हत- -नम् २ प्र ३३: ७.
४वृहत्^१- -हत् आथ १^१; १^१.
५वृहत्-
२वृहती^१- -त्या अशि ४, १४;
वृत् ३१६: ७.
वृहन्त^१- -न्ते धे १, ६; नाप ९,
५; भद्र २, ४^१.
ब्रह्म- -हम् धे १, ९^१; १२; नाप
९, ८; ११.
ब्रह्मन्^१- -ह्य के मां^१; १, ४-८; ३, १;
४, १^१; २; ३; क १, २, १६; २५;
३, २; २, २, ६; ८; ३, १; १४; १८;
प्र १, १; २; ६; ४, ४; ५, २, ६,
७; सुं १, ८^१; २, १, १०; २, २;
४; ९; ११^१; ३, २, १; ९^१; मां २^१;
तै मां^१; २, ५, १; ३^१; ६, २; ८,
१^१; २, १-३, १; ६, १^१; ३,
१, १^१; २-५, १^१; ६, १; १०, ४; ऐ
३, १३; ५, ३; छां मां^१; १, ७, ५;
३, ५, १; ३; ११, ४; ५; १२, ७;

√वृह्(१)वधा., वृहति शां ३, १.
१वृहत्^१- -हत् क २, २, २; सुं ३, १,
७; धे २, ३४^१; ३, १०^१; मना १,
१५४^१; २, १२, २; २, ४०;
४१४^१; अशि ४, १४^१; वृत् ३, ६;
महा ५, १७; त्रिता ४, २८; पं १६;
गोउ २१^१; ह १८४^१; पा ३, १०;
वृत् ३१६: ७; गु ३६; वपू २, ३;
-हत्-हत् अज्ञ २, ३०^१; -हत:
धे २, ४४^१; वृजा ३, २९^१; सर
२, २४^१; -हते पा ८, ५; व ४६५:
४४^१; -हत् वृ २, १, ३१^१; कौ ४,
२^१; -०हत् वृ २, १, १५^१; कौ
४, १८^१; -हन्त: व ४३४: १;
-हन्तम् धे ३, ७; शा ४; इ १२:
१२; पा ७, ९; १०.
वृहच्-उन्द- -न्दम् नाप ५, १.
वृहज्-जाशाल^१- -लम् वृजा
६, १२^१; ८, १-५; -लस्य वृजा
८, १.

a) 'वृहती, ब्रह्मवती' इति निसा. संटि. । b) =महत्- । वैपश् यद. । c) मा ११, ३ । d) 'सुहृत्' इति
आन. संटि. (तु. शंटी., नाशं, विवि) । e) श्र ९, ९७, ४० । f) तैश्वा १०, ३९, १ । g) 'हृति इति अख्या. ।
h) 'ब्रह्मन्' इति अख्या. संटि. । i) श्र ३, ५३, १५ । 'ब्रह्म' इति अख्या. संटि. । j) 'वृत्' इति निसा. संटि. ।
k) मा ११, ४ । l) 'ब्रह्मवतः' इति अख्या. । m) श्र ५, ४३, ११ । n) तैश्वा २, १२, १ । o) 'हृत्' इति निसा., आन.
(तु.शं.) यनि. शोघ: द्र. (तु. रामा., J.C.) । p) 'हृत्' इति निसा. (तु. J.C.) यनि. शोघ: द्र. (तु. अख्या.) । q) वैटु.
रामा. 'हृत्' इति । r) =उपनिषद्विशेष- । b) निसा. अख्या. च पा. ? यनि. शोघ: द्र. (तु. तान्त्रि.) । t) ब्रह्म^० इति निसा. ।
u) =स्वाहा- । v) =वृपविशेष- । w) =सामविशेष- । x) तैश्वा १०, ६३, १ । y) मा १२, ४ । z) =छन्दो-
विशेष- । a') =ब्रह्मचारिभेदविशेष- । b') सकृत् 'वृहन्ति' इति अख्या. संटि. । c') अर्थ: ? । d') ह्य् > अन्त:
प्र. उर्ष. (पाउ ३, १२६) । e') 'वहन्ते' इति पा. ? यनि. शोघ: द्र. (तु. धे १, ६) । f') ब्रह्म ह्ये^० इति नादी. ।
g') वज्रा. वैपश् यद. । h') तु. गपू. पृ ३०१ ।

१४, १; ४; १८, १; २; १९, १;
 ४; ७, १०, ४; ५; १५, १; ५; ५,
 १०, २; ११, १; ७, १, ५; २, २;
 ३, १; २; ४, ३; ५, ३; ६-१४,
 २; ८, ३, ४; ७, ४; ८, ३;
 १०, १; ११, १; १४, १; वृ३,
 ३, २, १; ४, ९; १०; ११; १५;
 ५, १७; ६, १-३; २, १, १-१३;
 १, ५; ४, ५; ६; ५, १-१४; १९;
 ६, ३; ३, ४, १; २; ५, १; ९, ९;
 १९, ९, २८, ७; ४, १, २; ३; ७;
 ३, ३७; ४, ५; ६; ७; १७; १८;
 २५; ५, ६; ७; ६, ३; ५, १, १;
 ३, १; ४, १; ५, १; ७, १; १२,
 १; ६, १, ७; ५, ४; खे १, १, ७;
 १६; २, ५; ७; ३, ७; ४, २; ५;
 ६, १०; २, १; गौ १, २, ५; २, ६; ३,
 १२; ३, ५; ४, ६; मै शां; २, २;
 ५, ३; ४; मैत्रि २, २; ४, ५;
 ६; ६, ३; ४; ५; १४; १६;
 १७; १८; २०; २२; २४; ३५;
 ३८; ७, ११; मैत्रे शां; ३, १;
 आह शां; अशि १, १०; ३, २;
 १२; ४, ३; १४; १५; ५, २२;
 ६, १७; ७; अ १; ३; त्रवि ६;

८; १६; १७; २१; कै १, १०;
 १६; १७; १९; जा १; ४; हं ९;
 २०; गर्भे; नाष्ठ; मना १, २; १;
 १; ६; १०; १५; १५; २,
 ११; १०; १३, ११; २, १, ५;
 २३; ३; ३; ३; ३; ३;
 ३५; ३; ३; ३; ३-४-१;
 ४; ६; ६; ६; ६; ६; ६;
 अना १; २; २; २, १, २;
 १३; १५; ४, ३; वृ १, २;
 ३; ४; २, ११; ४, १; ३; ३;
 ५, १; २; ३; ६, ३; ४; ७, २;
 ५; ७; ९; १०; ८, २, ५;
 ९, १७; सुवा ३; कै १, ४;
 २, १; २; ६; १२; १३; ४, १;
 ३-६; १८; वृजा ३, २४; मन्त्रि
 १०; १७; ससा १, ३, १; ३८;
 ५; नि ४; ११; १४; १५; २०;
 २२; ४; ४; ५; ५; शु १,
 १०; १८; २, १; २; ४; ५; ३,
 २; ४; ८; १७; वृ २९; ३०;
 ते १, १४; १७; ३२; ३६; २,
 ४; ३; ५; ४; ३, १६; २०, २६;
 ३९; ६०-७२; ७; ४, २; ३;
 १६; २९; ३०; ३६; ३८; ३९;

७७; ५, १; ५; १०; ३०; ३९;
 ४०; ५९-६१; ६, ४; ३१;
 ३२-३४; ३५; ३६; ३७;
 ३८; ३९; ४२-४४; ४८; ६१;
 ६५; ६६; ७०; ७२; १००;
 १०२-१०४; १०५; १०६;
 १०७; १११; नाद १६; १७;
 ४८; ध्या ९; १४; त्रवि
 २; ४; १३; नाप ३, १७;
 २०; ५१; ६०; ७७; ८६; ५,
 ३९; ६, १; ८, १; ५; ६; ९, ६;
 त्रिना १; २; २, १५१; १६१;
 १६२; योच शां; ८०; निर्वा २९८;
 १५; १७; शर ६; २७; २९; मं १,
 २, ४; २, १, ७; ४, ६; ५, १; ३, १,
 ३; २, १; वा शां; २७; अतार; ३;
 १०; १७; मुद्र ३; ४; शां २, १;
 ३, १; पै १, ४; २, ५, ४; ३, १;
 ४, १९; २२; २३; महा शां; २,
 ९; ४, २, ५; ४, ५; ७२; ८१; ९१;
 ११९; १२४; १३२; ५, ५६;
 ५७; ६९; १०४; १०५; ११३; ६;
 १२; ६१; योशि १, १६५; २,
 १६; ३, १६; ६, ६६; संन्या
 शां; २, ६; १०४; २ संन्या १६;

a) श्र १०, १३, १। b) मा ३२, १। c) तैआ १०, १५, १। d) तैआ १०, १, २। e) तैआ १०, १, ६।
 f) मा १३, ३। g) तैआ १०, १, १५। h) तैआ १०, १, १६। i) तैआ १०, ८, १। j) तैआ १०, ११, १।
 k) तैआ १०, १४, १। l) तैआ १०, १२, १। m) तैआ १०, २३, १। n) तैआ १०, ३३। o) तैआ १०,
 २६, १। p) तैआ १०, २७, १। q) वैतु. सा. (तैआ १०, ४८, १) १मे स्थ. 'ग्रह मेतु' (=ग्रह मे एतु) इत्यत्र
 'ग्रहम्(१) एतु' इति पदद्वयमिति। एवं 'मधु मेतु' (=मधु मे एतु) इत्यत्र 'मधुम् (१) एतु' इति पदद्वयमिति, भा.,
 Jc. च (तैआ.) यनि. च √मी>मेतु इति च पदद्वयमिति। एवं तत्रैव 'ग्रहमेव' इत्यत्र 'ग्रह मे एव' इति प्रीणि
 पदानि द्र. (वैतु. सा. (तैआ.) 'ग्रहम् (१) एव' इति पदे इति, नादौ. (वृ. Jc.) 'ग्रह मे अव(< √अव्)' इति प्रीणि
 पदानीति ? (वैतु. तैआ. यत्रैवं सति 'वृ ह्यन्तोदात्तो नोपपद्येत।]। अथ ३ये स्थ. 'ग्रह मेघया' इति पदे द्र. (वैतु.
 नादौ. (वृ. Jc.) 'ग्रहमेघा- > -धया' इत्येकं पदमिति ? (वैतु. तैआ. [१०, ४९, १] यत्रैवं सति प्रतिपदस्वरपार्थक्यं
 नोपपद्येत।]। अथापि ३ये स्थ. 'ग्रह मेघया (१या)' इति श्लोषितं सत् पदद्वयं द्र. [=अत्र 'या > 'मां' > 'वा इति
 लैपि. इत्यभिगंधिः (वैतु. नादौ. [वृ. Jc.] यनि. शोघमूरीकुवाणोऽपि ग्रहम् इति स. इति [यत्र स्वरविरोधः पूर्ववत्
 द्र.], भा. सा. च [तैआ. १०, ५०, १] 'मेघ[=यशु]वत्-> -वा' [प्र१] इतीव पृथक् पदमिति ? [एवं सति स्वरविरो-
 धस्तु द्र. मेघ- इत्यस्यापुशोत्तवन्मध्यस्वरानुपपत्तेः]]। r) तैआ ३, १५, १। s) एकतरग्र 'ग्रहा' इति तैआ १०-
 ३१, १; अन्यतरग्र तैआ १०, १५, १। t) 'ह्रवि' इति ध्यान.। u) वैतु. Jc. स्थलद्वये ग्रह-विद्ग्रह-इति।
 v) 'माहम्' इति निशा. यनि. शोधः द्र. (वृ. अच्चा.)। w) 'ह्रा इति अच्चा.।

३;५१; १; ५१; २८; ५१; २; १; ५२०; ४; १५; अक्ष ३; अव्य
 शां; २; छ; अक्ष १, १९; २; ४; १५; ३६; ३५; ३; १९; ४; २५;
 २९; ५, ८; १०; १९; २०; २१; २२; ४८; ५६; ६५; ६८;
 ७२; ७४; ७९; ९५; ११२;
 ११३; १२०; सू १५; स्क ५;
 १३; २४; अक्षि ४९; अख्या
 १०; २१; ३२; ५०; ६३; कुं शां;
 १४; २०; १भा १; २; ३; ८;
 २१; २२; २३; पाशु १,
 ११; २७; १०; २, १६; २७;
 ३०; ४३; ४४; आयो १; २६;
 पत्र २; ३, १; त्रिता १, १३; ५७;
 २, ३६; ७३; ३, ३७; ५, १; ६;
 ८; १६; १७; २०; २१; कठ
 ९-११; १२; २२; २७; त्रिवि १,
 ५; ११; २, १४; ३, २; ४, ३;
 ४; ७; ६, २५; ७, ४३; ४४; १;
 ८, ५; रा १, ६; ५, ५, ६; ११;
 राष्ट्र १, ६; रा १, १; २;
 ३, १; ४, १; ३; ४; स्र २६;
 ३८; ५२; यो ३, २४; म २,
 ५; ग २; ५; ६; जाद शां;
 १, १०; ४, ६०; ६, ११, ७, २;
 ९, १; १०, ६; १०; सावि रुना
 आवा शां; ला १, १; २; २,
 १; ३, ८; मना ६; पं २०; २३;
 २४; प्रा १, ६; २, १; ४, १;
 गोपू ५; १२; गो ३०; ४०;
 ४१; ६४; क १२; या १, १;
 वरा २, १३; १७; १९; २६; ३८;
 ४१; ४३; ६४; ७१-७३; ३, २;

शा ५; ११; २५; ३०; ह १३;
 वलि २; सौ २, १९; सर ३,
 २२; व १४; १६; १७; सु २, २,
 ६४; अक्षि २; ९; १०; १५; २१;
 २४; अर्थि ७; ४; ८; ९; २;
 इ ११; १३; १२; २; १४; १७; च
 २१; १७; १३; १५; ५; ३२; १;
 २३ ३२; २२; ३४; १६; इ १२;
 भा ३; म ४८; १४; २०; ४९; ४;
 ११; शौ ५३; ८; गोच ६६; ११;
 ६७; ८; १६; ६९; १५; २०;
 नापू १, १२; १३; ५, १७; ना १,
 १३; १४; २७; पा २, ३; ३,
 १०; राधा २, ९; सार २१९;
 ४; २३१; १; २४५; १७;
 २५७; १७; २५८; १५; २८९;
 १७; स्र १४; १६; क २२; वड
 ३१५; १; १३; १८; ३१६; ६;
 ७१; ३१७; १३; ३१८; ११;
 २शिशं ३०; ३२१; शि ७, ६२;
 ११५; स ३७९; २१; वाथ
 ३९९; १८; २०; सु ५२; विद्या
 ४; व ४६१; २२१; ४६३;
 ३१; ४६४; १११; ४६७; ३;
 अठ २३१; चू १०; १७, २१;
 अवि ६; ८; १६; १७; २१;
 कथु १, १; २, २; वपू १, २;
 २, १; ३, १; व १, १; ४; १९;
 २, १०; १५; ३, १; ३; १४; ४;
 १; ३; ५, ३३; भव १, ३३; ५७;
 २, ६; ३३; ५७; ३, ५; ३२; विम
 २, २; १०; गी ३, १५; ४,
 २४; ३१; ५, ६; १९; ७, २९;
 ८, १; ३; १३; २४; १०, १२;

१३, १२; ३०; १४, ४; १८,
 ५०; -क्ष-क्ष मन्त्रि २०; -क्षणः
 के २-४, १; तै १, ४, १; २,
 ४, १; ८, ४; ९, १; ३, १०,
 ४; छां ३, १८, ३-६; ४, ५,
 २; ३; ६, ३; ४; ७-८, ३; ४;
 ८, ३; ४; ५, ३; वृ १, ४, ६; २, ३,
 १; ४, ५; ६, ३; ४, ५, ६; ६, ३;
 ६, ५, ४; मै ५, ३; मैत्रि ४,
 ४; ६; ६, ३; १५; २६; २७; २९;
 ३४; ७, १०; मना २, १५;
 २१; ७; ५; ११; ८; अशि ६;
 १५; कौ २, १; २; वपू १,
 १३; १४; वृ ७, ७, नि १८; तै १,
 ९; ३५; ३, ३३; ६, ४९; ५०;
 ५१; मवि १; ४१; १योर १०४;
 नाप ४, ३८; त्रिभा १, ३; २,
 ६९; गोचू ७२; रा ७; १७;
 त्रिवि ३, ४; ५; ७; १; रा ५,
 ८; राष्ट्र १, ७; रा ३, ७; शां
 ३, १; योशि २, १४; ४, ३; ५;
 ७; ५, २८; अव्य ७; १भा २६,
 २८; वरा ३, २; सर २, २; सु
 ३, १५; कठ २१; जाद ४, ६३;
 गो १३; ६८; अक्षि १७; २४;
 २५; १३ ३०; ३; २३ ३२; ९;
 १९; ३५; ३१; गोच ६७; १४;
 नापू ५, १३; ना १, १; सार
 २१९; १; २४०; २३; २४३;
 १६; २८५; १३; १६; वड ३१७;
 २२; शि ७, १३०; स ३७९;
 २०; त्रिशि ३८०; ५; गार
 ४०५; ६; व ४६४; १११; अठ
 २२१; भव २, ३३; व ३,

a) मा १३, ३ । b) सकृत् 'तत्परायणम्' इति श्रवणा । c) तैश्चा १०, १५, १ । d) 'ब्रह्मा' इति श्रवणा । e) 'ब्राह्मणः' इति निसा. संदि., श्रवणा । f) तैश्चा ८, १, १ । g) तैश्चा १०, १, ६ । h) तैश्चा १०, १२, १ । i) तैश्चा १, २७, ३ । j) तैश्चा १०, १४, १ । k) तैश्चा १०, ४७, १ । l) तैश्चा १०, ६३, १ । m) तैश्चा १०, ६४, १ । n) सकृत् 'णे' इति श्रान. । o) 'ह्लाङ्गम्' इति श्रान. । p) तैश्चा ७, ४, १ । q) तैश्चा ८, ४, १ । r) 'णे' इति निसा. । s) 'ब्राह्मणः' इति मुपा. यनि. शोधः द. (उ. गोभा १, १, २५) । t) तश्चा ४, ३८, १ ।

४७; गी ४, ३२; ६, ३८; ८, १७; ११, ३७; -१४, २७; १७, २३; -ह्यणा तै १, ५, ३; २, १, १; छाँ ३, १०, ३; ३; ११, २; वृ २, २, ३^१; ३, १, ६; ४, ४, ९; मैत्रि ६, १२; जा ५; वृ १, ३; ४, ३; ७, १४; सा २६; त्रिवि ५, १२; राउ ३, १; पं २, ३२; महा ४, ५०; ५, १३६; या २, १; गह ९; १२-२४; सर ३, ११; इ १२; ६; वष४०:२२^१; ४४६:५^१; ४५१:२^१; ४५४:१^१; ४६४: १३; वउ १, २०; भव २, ५९; गी ४, २४; -ह्यणाम् त्रिता ३, २८^१; वरा ३, २२; व ४२९:१०^१; -ह्यणि तै १, ६, २; शे १, ७, २; ११; गौ ३, १; मना २, ६१^१; कौ १, ७^१; मै ४, ५; मैत्रि ६, २२; ३४; मैत्रे १, ४, ७; २, २२; वृ १, १५; वृ ४, ४, ५, १-३; ६, ४; सुबा ५; १०; नि ३०; शु १, ५; तै १, २८; ध्या ६; नाप ३, ५२; ९, ६; गौ ६३^१; त्रिवि २, १; ३, ७; रापू १, १०; महा ४, १५; योशि ४, १३; अथ्या ४३; वरा ५, ५७; सा २; १५; मवा ६; कृ ४, सर ३, २३; ष ३, ३८; ५, ४६; भव २, ६; ३, १२; १५; गी ५, १०; १९; २०; -ह्यणी मैत्रि ६, ३२; त्रिता ५, १७; -ह्यणे तै वा^१; १, १२, १; वृ २, ६, ३; ४, ६, ३; ६, ३, ३;

५, ४; कौ २, १; २; मैत्रि ६, ३३; ३५; ३८; मना २, ९^१; ६७^१; ७९^१; वृजा ३, १९; ४, २९; सुबा ७; वसू १; अथ्या ७०; ह २०^१; रसंन्या १६; ९; गौ ६७; जाद ७, ४; आपें ९:२१^१; सार २७५: २०; गार ४०५: १; व ४६२: १६^१; ४६५: ३^१; १कौल वां^१; वपू १, १^१; ३; -०ह्यन् क १, १, ९^१; मना २, ७९^१; वृजा ५, ११; १३; १यौत १९; २१; २८; त्रिमा २, ८०; ९६; ९९; योचू ९२^१; महा २, ४१; ७२; ३, १९; २०; ५, ८३; ९०; ११०; १२४; १३५; ६, ४३; ५५; योशि १, १३५; १३९; २, २; ५; ८; १३; ५, १; ४७; ६, ७०; अन्न १, २; ४२; ४३; ४८; ५०; ५, २५; २६; ३४; ६१; पाशु १, २; त्रिवि १, २; ८, १४; सुद्र २; गो २, १४; २५; २६; ४१; जाद १, ५; ५, १; गौ ३१; ५८; इ १२:७; गार ४०५: २; व ४६२: १३; वउ २, ४^१; ३, ११; ३६; -ह्यमि: रुजा १, २३; -ह्या सुं १, १, १; २; तै १, ८, १; ऐ ५, ३; छा ३, ११, ४; ४, १६, २^१; ४; १७, ८; ९; १०^१; ८, १५, १; वृ ३, १, ६^१; ९; शे ५, ६^१; मै ४, ४, १, ३; ४, ५; मैत्रि ३, २५; ४, ५, १; २; ६, ५; कै १, ८^१; गर्भ ५; ना १; मना २, १२, १^१; २^१; १३, २^१; २, २१^१; ३५^१; ४९^१;

७८^१; ७९^१; ८०^१; व २; अशि २, १; ६, १५; अ १; २^१; कौ १, ३; ५^१; ७; वृजा ४, २६; वृपू १, ८^१; १२; २, २; ४, १५, १; वृ ३, २; ९, १०; सुबा १; ५-७; नि ५; २०; तै २, ५; २७; ५, ५१; ८८; ६, १७; ध्या २१; त्रिवि ३४; ७१; योचू ६२; ७२^१; ७५-७७; द १; त्रिवि १, १; २, १६; ८, २४; रा २, २; २०; ४८; राउ ४, १; ५; याँ ३, १; महा १, १^१; ३, ५२; ५, १५८^१; १६०; योशि १, १७६; ४, ३; ५; ६; १८; २०; ५, १३; ५६; पप ४१८:२०; ४१९: २०; ४२०: ६; सू १:९; अथ्या २०; ७०; पाशु १, १; ११; २, २२; पत्र २; क १^१; रू ४; ८^१; १३; १५; १८; भ २, १२; २७; २९; ग ६; ता १, २; २, १; मवा १; पं १; प्रा १, ६^१; गौ २३; २६; ६२; ६४; ह २; ९; दत्ता १; १^१; रुजा २, १९; गह १^१; २; २५; कलि १; व २; इ १९:१८; च २०:२४; २१: ६; २३२:१; सूता १, ५; १७; स्व ६०:५; तुल ७१:२१; नापू २, १; ३; १; ५^१; १९; ४, १५, ५, १; १२; ६, १; नाउ १, १; २, १; १३; ३, १; कृपु १८^१; २२; पा ३, ६; गार २४३: ६; ८:२८०: १५; लि ३ १०:१६; वट ३१३: ३; ३१७: २०; २विमं १८; स ३७८:९; हे ७; वलि ४०३:७^१;

a) ऋ १, २४, ११ । b) ऋ २, २३, १ । c) तैश्वाद्या १०, ६९^१ । d) 'महणः' इति खान., वे., रांश्या ३, ७ । e) 'वीपे' इति अथ्या. यत्रि. शोधः (तु. खान.; वैतु. निता. महागणियु) । f) ऐशा ८, ९, ५ । g) तैशा १०, ७, १ । h) तैश्वाद्या १०, ६७ । i) तैशा १०, ६३, १ । j) वृष ८, ४५ । k) तैशा २, १२, १ । l) 'महा' इति अथ्या. । m) 'महा' इति खान. संटि. । n) तैशा १०, ११, २ । o) ऋ ९, १६, ६ । p) ऋ ४, ५८, २ । q) तैशा १०, ४७, १ । r) तैश्वाद्या १०, ३५ । s) तैशा १०, ३९, १ । t) तैशा १०, ६२, १ । u) तैशा १०, ६३, १^१ । वैतु. ना. महान्- > -ह इति । v) तैशा १०, ६४, १ । w) 'महा' इति अथ्या. । x) 'महा' इति निता. । y) तैशा १०, ३१, १ । z) 'महा' इति अथ्या. संटि. । a') या. १ ।

गार ४०५:३; ६; ४०८:६;
 २०; गु ७४; व ४४२:१२;
 १३; १८९; ४४७:१८; ४४८:
 २९; ४५२:९९; ४६५:१;
 ९^०अरु२३:२५; तारा ८४:११;
 अद्वैता ५; वपु १,१९:२; ४; २,
 १; वज २, १; ३; ३, १७; १९;
 २१; ३७; ४०; ५९; ४, २५;
 -ह्यणम् छां ४, १७, ९; १०; धे
 ६, १८; मना २, ७९^०; वृज ३,
 ९; १०; सुपा १; ९; शु १, १;
 ५या ३१; शरि; २; त्रिवि ५, १२;
 दे २; जाद ८, ५; गोपु २२; दत्ता
 ३; ह १; कलि १; वि १; २प्र
 ३२: १; दत्ता १, १; का १; तुल
 ७१: २१; नार १; नापु १, १;
 पा ३, १०; रशिसं १६; वज ३,
 १८; २८; ३६; गी ११, १५;
 -ह्यणि वृजा ३, १४.

महाण्यो--णि व ४३१:
 १७; ४५२:६; न्यै व ४३१:३;
 ४३६:४.

महा- -ह्य: आप्र १९^०;
 अद्वैता ५; -ह्यम् वृ४, ४, ४; पाशु
 २, ६^०; २प्र ३४: २०; सि ५,
 ४५; गार ४०७:१०; -ह्ये त्रिवा
 २, १११; -ह्येण व्रसू ४, ५.

महाही- -ह्यि व
 ४३१:१७; ४५८:११; ही नाद
 ११; योचू ८६; महा ६, ७३, गोव
 ६३; कलि ४०१:१०; गार ४०६:
 १५; पी ४२२: १०; रथा १३;
 सुसु १३; तारा ८४:४; गी २, ७२;
 -ह्यीम् के ४, ७; कुं२; २प्र ३२:६.

महाही-नाकि-
 -कि: आध ३९४: २.

महास्य(ही-अ)-
 एक- -कम् आध ३९४: १.

महास्य(ही-आ)-
 दि- -दय: सूता ५, ११.

महास्यय-
 (दि-अ)ष्टम्- -ष्ट मा १०.

महा-काल- -ले जादृ ६,
 २१.

महा(दा-इ)ष्टि- -ष्टिम्
 २संन्या १५:५.

महास्यग^०- -ण: क१, १, ७;
 ८; सुं१, २, १२; तै१, ८, १; छां ७,
 १५, १; वृ १, ४, ११; १५; २, १,
 १५; ३, ५, १; ८, १०; ४, ४, २१;
 २३; ६, ४, १२; मना २, ८०^०;
 जा ५; अशि ७, १; की २, ९;
 मैत्रि ७, १०; वृजा ७, ४; सुबा
 १९^०; ति ५६; वस् २-५; ७^०;
 ९; ११^०; १६^०; १७; १८; २०^०;
 २१; २२; २८; ध्या १४^०; नाप
 ३, १४; ४०; ७७; ८६; ४, ३४;
 त्रिवा १, १; राउ १, २; सुद्र ३;
 शं १, ७, ४६; पै ३, १; महा ६,
 ८; ५५ ४२०:५; ८; अन्य ५;
 अल ४, ३७; सू ६; २६^०; अचि
 १; पाशु १, १९; पत्र ३, ३; म
 १, ८; २, १, रुजा १, १०; ३, १;
 गोपु ३; ५; वरा ३, २२; ४, ३३;
 शा २३; या २, १; दत्ता ३; कलि
 ३; इ १०: ४; ११: २०; १४:
 २३; १५: ५; ११; १८: १४;
 च २१: ७; चा १३; २प्र ३३:
 १५; स्व ६१: ९; सार २२६:
 १८; २५६: १७; २७९: ११;
 २८९: २, सु २९३: १; इ १^०;
 २; ३; ४^०; ५; लि ३१०: १३;

वदु ३१८:३; वि२४; गार ४०८:
 १६; रा ४२३: ९; ४२५: २;
 विद्या १; चू २०; वज ३, ४७;
 भव २, ६३; -णम् छां ७, १५, २;
 कौष, १८; राउ ५, १५; अन्य ५;
 गोपु २; शा ३३९^०; सु १, १,
 ५३^०; इ १३: १; -णयो: छा
 १, ८, २; -गस्य छां ४, १, ७; वृ
 ४, ४, २३; ६, ४, २८; वृजा ६, १;
 पत्र २; आच २; इ ११: १६;
 १२: १३; य ३; सु २९३: ३;
 शि ६, १५६; गी २, ४६; -णा: तै
 १, ११, ३; ४^०; वृ ३, १, २; ५,
 १; ८, ८; १, ८; २७; ४, ४, २२;
 ५, १, १; मना २, ३८^०; ३९^०;
 ४०^०;
 वृजा ५, २; सुबा ९; मन्त्रि
 २०; पाशु १, ३०; रुजा १, ८; ९;
 सर २, ६९^०; इ ११: १; १२: ८;
 छाग २३: ४; ५^०; ६; २४: १८;
 २प्र ३३: २२; नापु ५, ३२^०;
 सार २३१: २१; २३५: २;
 २७३: ६; १०; २७८: ९; रशिसं
 ३७; सिशि ३८: १७; भव २, ६५;
 गी ९, ३३; १७, २३^०; -णा:
 वृ ३, १, २; ८, १; १२; ९, २७;
 -ण्यव ४ ४; -ण्यम् छां २, २०,
 ३; ५, ३, ७; वृ ३, ९, १९; अशि
 १, ११; वृजा ३, २१; नाप ४,
 ३८^०; म १, ४; २, ११; य १८;
 अचि १; यर २५^०; इ १०: ७;
 १९: १९; चा १४; मृ ८; गार
 ४०८: २०; व ४५८: २२;
 -णानाम् छां ८, १४, १; वृ ३, १,
 १; म १, ८^०; २, १; वा ३३; इ
 १५: १; लि ३०९: ९; -णाय
 मना २, ३८^०; ३९^०; ४०^०;

a) ऋ ९, १६, ६ । b) तैत्र्या १, २७, ३ । c) तैत्र्या १०, ६३, १ । d) ०ह्यम् इति ऋत्वा. यनि. शोध: द्र.
 (तु. निसा.) । e) तु. टि. प्राविणी-मुद्रा- । f) वैप१ यद्र. । g) तैत्र्या १०, ६४, १ । h) ऋ १०, ९०, १२ । i) 'महाण्यः'
 इति निसा. । j) वाध २, ८ । k) तैत्र्या १०, ४८, १ । l) तैत्र्या १०, ४९, १ । m) तैत्र्या १०, ५०, १ । n) ऋ १, १६, ४,
 ४५ । o) णः इति मुपा. यनि. शोध: द्र. (तु. वे.) । p) 'महाण्य' इति SCHR. पागे. [वैदु. वे. (NIA २, २३१)] ।

गोत्र १;३; वि २४; -गे वृ १,
४, १५; ६, २, ८; १संन्या २,
६९; ७०; इ १५; १०; गी५, १८;
-गम्यः मना २, ३६१^०; अति ४,
३; वृह ३१५ : १८; वपू १, ३;
-गेषु वृजा ३, १८; -गेः अति १,
१०; सु २९४ : १५.

ब्राह्मणी-पयाम् सं
१५.

ब्राह्मण^{१०}-णम् २प्र
३३:१७; ३४:३; १०; ३६:
३; -गे शा ८^०; २प्र ३४:३.

ब्राह्मण-वचन-नम्
२प्र ३५:३.

ब्राह्मण-कुल-ले इ
१८:२१; -लेषु आथ ४.

ब्राह्मण-क्षत्रिय-विश्व-
-विशाम् गी १८, ४१.

ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्य-
द्वन्द्व-द्वः भव २, २६.

ब्राह्मण-भ्र-भ्रैः स्व
६१:८.

ब्राह्मण-स्व-स्वम् पत्र
२^३; इ ११:२३; -स्वात् इ ११:
२३.

ब्राह्मण-त्व-सिद्धि-
-द्धिः वसू २९.

ब्राह्मण-मूपाल-वैश्य-
द्वन्द्व-गण-ग्याः महा ५, १३९.

ब्राह्मण-योनि-निम् छां
५, १०, ७.

ब्राह्मण-वध-घात् भ१,
११.

ब्राह्मण-मत्तम-म
त्रिमा २, २४.

ब्राह्मण-दन्-दाक्षां ७,
१५, २; ३.

ब्राह्मणाच्-छन्निन्-न्नि
प्रा ३, १; ४, १.

ब्राह्मणा(ण-अ)तिरुक्त-
-मः इ १४:२०.

ब्राह्मणा(ण-आ)दि-
-दयः ब्र ३, ४; नि ७; २२; नाप
३, ८४; चू २१.

ब्राह्मणा(ण-अ)धिक-
-कः रु ५.

ब्राह्मणा(ण-आ)भास-
मात्र-त्रेण पत्र ३, ९.

ब्राह्मणा(ण-अ)यन^०-
-नाः वृ ६, ४, ४.

ब्राह्मणो(ण-उ)त्तम-
-मम् महा ६, ४६.

ब्राह्मण्य-ण्यम् गौ ४,
८५; ब्र ३, ५; पत्र ३, ११; आवो
२२; नाप ३, ८५; वरा २, ५; शा
१७; -ण्येन अशि १, ११^१!

ब्राह्मण्या(ण्य-आ)धा-
(२>)रा-राम् पप ४१८:२१.

ब्रह्म-क्तपि-पिः शां २, १.

ब्रह्म-कर्मन्-र्मं गी १८, ४२.

ब्रह्मकर्मो(र्म-उ)क्त-धी^०-
ब्रह्मकर्मोक्तधी-मत्-
-मते श ३४.

ब्रह्म-कर्म-समाधि^१-धिना श
२६; गी ४, २४.

ब्रह्म-कल्प-तर-रवे त्रिवि ७,
४३.

ब्रह्मकल्पतरु-वन-नैः सि
३, ३.

ब्रह्म-कल्प-वनानि-अ)मृत-
पुण्य-वृष्टि-ष्टिभिः त्रिवि ७,
५०.

ब्रह्म-कार्य-र्यम् पं २२^१.

ब्रह्म-काल(ल)>ली-
ब्रह्मकाली-स्व-स्वम् हंषो
१०.

ब्रह्म-कुल-दप-पम् ते १,
१३.

ब्रह्म-कृत-कृत इ ११:२१.

ब्रह्म-कैवल्य-जाबाल-श्वेताश्व^{१०}-
-श्वः सु १, १, ३१.

ब्रह्म-कोश-शम् मेदि ६, २८;

३८; म २, २५; २९.
ब्रह्म-क्षत्र-वैश्यक-कम् ते ६,
१२.

ब्रह्म-क्षत्रा(त्र-आ)दि-
ब्रह्मक्षत्रादि-क-कम् पाशु
२, ३९.

ब्रह्म-क्षत्रिय-वैश्य-द्वन्द्व-द्वः
वसू २.

ब्रह्म-गन्ध-न्धः कौ १, ५.

ब्रह्म-गा(व>)वी-वीः वृ ३,
७, १.

ब्रह्म-गायत्र-राधव-वाः रा
२, ३५.

ब्रह्म-गाय(त्र>)त्री-त्रीम् वसू
३, १.

ब्रह्म-गुप्ति-स्ये पा ३, १०.

ब्रह्म-गुह्य-प्रकार-रः पाशु १,
२५.

ब्रह्म-ग्रन्थि^{१०}-न्थिः त्रिवि ७०;
-न्थिम् योशि १, ८६; यो १, ६७;
८५; वरा ५, ६५.

ब्रह्मग्रन्थि-तस(>): वरा ५,
६४.

ब्रह्म-घन-ने महा ६, १३.

ब्रह्म-धोष-समन्वित-तं शां
१, ५.

ब्रह्म-भ्र-भ्रः रा १, ९; गोव
६८:१^६.

ब्रह्म-चक्र-कम् श्वे ६, १; सौ
३, १५^{११}; योरा ५५^{११}; भव २, ३;
-क्रे श्वे १, ६; नाप ९, ५; भव २, ४.

ब्रह्मचक्र-क-कम् ते ६,
१०१.

ब्रह्म-चर्वा^{१०}-र्यम् क १, २, १५;
प्र १, १३; १५; सुं २, १, ७; छां
४, ४, १, ३; १०, १; ६, १, १; ४,
५, १, ३^१; ७, ३; ११, ३; ५,
२, १; ६, २, ४; जा ४; आठ ३;
४^{१०}; नाप १, ३; ७, ७, ५, १; त्रिमा
२, ३२; शां १, १; महा १, १;
१संन्या २, १३; पप ४१८:३;

a) तैत्ति १०, ३०, १। b) = मन्विविरोध-। c) 'ब्रह्मणः' इति श्रवणा। d) पू. पयस्या अलुक् (पावा ६, ३, २)। e) वसू,।
f) °क्षणेन इति त्रिमा, यनि, शोषः द. (तु. आन., अश्रव्या)। g) घम.। h) सप्त.>कम.। i) कस.>वस.। j) तदाव्यो-
पनिपदां दस.>कम.। k) ब्रह्महन्- > -न्ता इति। c.। l) = शरीरव्यापि चक्रविरोध-। m) 'ब्रह्मचारिणाम्' इति आन., अश्रव्या।

अव्य १; पाशु १, ३१; कर् ७;
जाव १, ६; १३; १४; या १, १;
वरा ५, १२; इ ११ : ९; २प्र
३२:४; शि ७, १००; गु ३९;
भव ३, १६; पिंन १, १२; कथु
३, ७; गो ८, ११; १७, १४;
-वर्ति जा ४; नाप ३, ७७; पप
४१८ : ४; या १, १; -व्येण प्र
१, २; १०; ५, ३; सुं ३, १, ५; छां
८, ४, ३; ५, १; २, ३; ४; सुवा ३;
नाप ५, १; पाशु १, १९; कर् ५;
भव १, २; कथु ३, ५.

ब्रह्मचर्य-प्रतिष्ठा- -ष्टायाम्
योस् २, ३८.

ब्रह्मचर्य-वत्- -वान् नाप ३,
१४.

-ब्रह्मचर्य-शान्ति-संभ्रहण-
-णम् निर्वा २९८ : १५.

ब्रह्मचर्या(र्व-आ)दि- -दिभिः
पाशु २, ३२.

ब्रह्मचर्या(र्व-आ)परिग्रहा-
(ह-आ)दिता-सत्य- -स्यम् पप
४१९ : ६.

ब्रह्मचर्या(र्व-आ)धर्म- -मे
निर्वा २९८ : १६; कुं १.

ब्रह्मचर्याध्रमा(म-आ)दि-
तुरीया(य-आ)ध्रम-

ब्रह्मचर्याध्रमादितुरी-
याध्रम-वत् नाप ५, १

ब्रह्मचर्या(र्व-उ)पपन्न-
-ध्रम् दा ३४; सु १, १, ५२.

ब्रह्म-चारिन्- -रिणः तै १, ४,
२; जा ३; मना २, ७८१^६;

७९१^६; आध्र १; -रिणः मैत्रि
५, २; -रिणम् वृ ३, १, २;

-रिणा धृजा ५, ५; -रिणे हं ४;
योशि २, ३; -रिन् छां ४, ३.

७; १०, ३; -री छां २, २३, १;
४, ३, ५; १०, २; ४; आह २;
मन्त्रि ११^१; काला १७; ध्या
७२; भवि ४९; नाप ३, ७७; योच्
४२; रार ४, ३; वा ९; १३;
पप ४१८ : ६; कर् १; गोउ २;
५; जावा २६; सुता २, ५; ऊ
६४:११; गोच ६६ : १२; नाउ
३, १२; स ३७२ : २१; कालि
४०२ : ११; गार ४०८ : १९;
भव २, २६; च् ११; कथु २, ३.

ब्रह्मचारि-गृहि-वानप्रस्थ-
यति- -तीनाम् भ १, २८.

ब्रह्मचारि-व्रत- -ते गी६, १४

ब्रह्म-चिन्तन- -नम् ते १, २५.

ब्रह्म-चैतन्य- -न्यम् त्रिवि २, ८;
४, १४.

ब्रह्म-ज- -जाः गोउ २६; ६२.

ब्रह्म-ज- -जम् क १, १,
१७.

ब्रह्म-जिज्ञासा- -सा सी ९; ब्रम्
१, १, १.

ब्रह्म-ज्ञ- -ज्ञः सा ३०.

ब्रह्म-ज्ञान- -नम् त्रिवि ८, १२;
योशि ६, ७८; वो ३, १७; -नात्
लि ३०९ : ३; -नेन त्रिवि ६, १;
१०; पाशु २, ४५; गोउ ५०.

ब्रह्मज्ञान-प्रभा- -भा पाशु
२, २.

ब्रह्मज्ञान-प्राप्ति- -प्तिः गोच
६७ : ९.

ब्रह्मज्ञाना(न-अ)भि- -भिना
पै ४, ११.

ब्रह्मज्ञानो(न-उ)पत्ति- -त्तिः
गार ४०५ : ४.
ब्रह्म-ज्ञान-विज्ञान- -नम् अद्रे
२८.

ब्रह्म-ज्ञेय- -यम् गौ ३, ३३.
ब्रह्म-ज्योतिस्- -त्तिः म २, ७;
-विपः मैत्रि ६, ३६.

ब्रह्मण्य- -ण्यः ना ४^१; आबो
१^१; इ ११:२१; वृप ८५ : १२;

-ण्यम् मना २, ६३^१; ६७^१.

ब्रह्म-तत्त्व- -त्वम् खे २, १५;
महा ४, ७५; वरा २, ५६; सु २,
३, ६५.

ब्रह्म-ता- -ता गोउ १८; महा
६, ४७.

ब्रह्म-तारा(र-अ)न्तर-नाद-
रूप- -पः नाद ५६.

ब्रह्म-तीर्थ- -र्थम् आच ४.

ब्रह्म-तेजस्- -जः कौ १, ५१^१.

ब्रह्मतेजः- -परम-विलास-
विशेष- -यम् त्रिवि ७, ११.

ब्रह्मतेजो-मय- -यान् त्रिवि
६, २०.

ब्रह्मतेजोमया(य-अ)-
नन्त-शिपर- -राः सि ३, १.

ब्रह्मतेजोमया(य-आ)-
नन्द-रस- -प्रवाह- -है गति ३, ४.

ब्रह्मतेजो-राश्य(शि-अ)-
भ्यन्तर- -समासीन- -नम्
त्रिवि ६, २०.

ब्रह्मतेजो-विशेषा(य-आ)-
कार- -रैः त्रिवि ६, १८; सि
२, ९.

ब्रह्म-त्व- -त्वम् योशि १, १६३;
४, ७; पत्र १; गोउ ३०; वरा
२, ७९; मर ३, ११; पारा १८;

कालि ४०१ : १३; कर्म १०;
-रवे वार २, ७०; -न्येन ते १, ३१.

ब्रह्म-दृष्ट- -दृष्ट व ४३५ : ९.

ब्रह्म-दत्त, ता- -त्तः वृ १, ३,
२४१^१; -त्ता मना १, ८.

a) द्रस > पम. b) समाहारे द्रस. c) वाप २, ९। d) तैश्चा १०, ६२, १। e) तैश्चा १०, ६३, १।

f) सम्प^० इति निसा. यति. शोषः द्र. (उ. आन.)। g) तैश्चाश्चा १०, ६३। h) तैश्चाश्चा १०, ६४। i) °क्षयताः इति आन. संटि., शोभा ३, ५। j) °क्षमाद् इति तान्त्रि.।

महा-दृष्टि- -ष्टिः प्रम् ४, १, ५;
 -द्वया अत्र ५, ४४.
 महा-देवता^१- -ताः तुल ७१:४.
 महादेव(ल्य>)त्सा- -त्या
 अशि ५, १९^१.
 महा-दैवत- -तम् २ प्र ३२:६.
 महा-दैव(ल्य>)त्या- -त्या २ प्र
 ३४: २०^१; गार ४०६: १८.
 महा-द्वार^१- -रम् मैत्रि ४, ४;
 योच ३७; यो २, ४२; -रे यो
 २, ४२.
 महाद्वार-पार- -रम् मैत्रि
 ६, २८.
 महाद्वार-मुख- -खम् योच
 ३७.
 महा-द्विप्- -द्विप्: व ४३८:
 १९; ४३९: ६; १६; ४४०:
 ३; १३; ४४१: २; ११; २२;
 ४४२: १०; २१; ४४३: ७; १७;
 ४४४: ११; २१; ४४५: ९;
 १९; ४४६: ८; १८; ४४७: ५;
 १७; ४४८: ५; १५; ४४९: ३;
 १२^१; १३; २०; ४५०: ४;
 ११; १८; ४५१: ४; ११; १९;
 ४५२: ३; ११; १९; ४५३:
 ३; ८; १४; २१; ४५४: ३; ११;
 १७; ४५५: १; ८; ४५६: ७; १०.
 महा-धामन्- -म सुं ३, २, ४;
 प्र १.
 महा-धी- -धी(धि^१)यः मैत्रि
 ७, ११.
 महा-ध्याना(न-ञ)हं-
 महाध्यानाहं-ख- -खम्
 पत्र २.
 महा-नादि, ही^१- -ही त्रिमा २,
 ६९; अता ५; योशि १, १२५;

५, १७; ६, ८; ९; जाद ४, ९.
 महानादि-ना- -नाः शां १, ७,
 १२; योशि १, ११२; यो १, ५२.
 महानाडी-मुखा(ख-ञ)न्तः-
 स्थ-कफा(फ-ञ)य(दि-ञ)-
 गैल-नाशन- -नम् योशि १,
 ९९; यो १, ३८.
 महानाढ्या(डी-ञ)न्तर- -रम्
 यो १, ४६.
 महा-नाल- -ले सु १, १, १९.
 महा-निधि^१- -धये त्रिवि ७, ४३.
 महा-निर्वाण- -णम् यी २, ७२;
 ५, २४; २५; २६.
 महा-निश्चय- -यम् ते ६, १०१.
 महा-नि(ष्ठा>)ष्ट- -ष्टः मं १, ४,
 २; त्रिवि ८, २२; -ष्टम् सुं १, २,
 १२; त्रिवि १, ४; रुह ३५; -ष्ठाः
 प्र १, १; सुं ३, २, १०.
 महा-निष्ठा- -ष्टया अध्या १;
 -ष्टायाम् अध्या १४.
 महानिष्ठा-पर- -रः पप
 ४२०: ५; ८; -रम् नाप २.
 महा-नीड- -डम् मैत्रि ६, १५.
 महा-पथ- -थः छां ४, १५, ५;
 मैत्रि ६, ३०.
 महा-पद- -दम् अशि ५, १०.
 महा-पदवी- -वी मैत्रि ६, ३०.
 महा-पर- -राः प्र १, १; -रे श्वे
 ५, १.
 महा-परिहान- -नात् महा ४,
 ८१; वरा २, २०.
 महा-पर्य- -र्यं म १, ३.
 महा-पुत्र^१- -प्र नाप १; -प्रः
 पाशु १, २; २३; ३२; वपू १, ४;
 -प्राय वपू १, १; ३; -प्रेष्यः
 गोट ६८

२ महा-पु(त्र^१)त्रा- -त्रा कृ ६.
 महा-पुर^१- -रम् छां ८, १, ५;
 आषो १; -रे सुं २, २, ७; छां
 ८, १, १; २; ४; प्र १^१; पं ३४.
 महा-पुरुष- -पम्^१ नाष्ठ; आषो
 १^१; त्रिता ४, २५; -वाः छां ३,
 १३, ६; -पान् छां ३, १३, ६^१.
 महा-पूत- -तः वृजा ८, १; वृपू
 ५, १२; राठ ५, ४; पै ४, २३.
 महा-प्रणव- -वः नाप ७; ८, १^१;
 २०; पप ४१९; २०; २१; ४२०;
 ३; -वम् वृजा ८, ५^१; नाप ३, ८६.
 महाप्रणव-ध्याना(न-ञ)नु-
 संधान-पर- -रः नाप ७.
 महाप्रणव-नादक- -के नाद
 ५१.
 महाप्रणव-संलग्न-नाद- -दः
 नाद ४६.
 महाप्रणव-संधान-नाद-
 -दः नाद ३०^१.
 महाप्रणव-स्तुति- -तिः इ
 २०: २.
 महाप्रणवा(व-ञ)नुसंधान-
 -नेन पप ४२०: १७.
 महा-प्रवृत्ति- -त्तौ पाशु १, २२^१.
 महा-प्राप्त- -प्तः क २, १, ८.
 महा-प्राप्ति-कर- -रम् शु ३,
 १४; -री वरा ४, ४२.
 महा-पृथु- -पृथुः छां ६, १, १.
 महा-प्राथ-प्रसक्ति- -क्तेः सांघ
 ५, १६.
 महा-विल- -लम् यो २, ४०.
 महाविला(ल-ञ)न्तर- -रम्
 त्रिमा २, १५१.
 महाविला(ल-ञ)वधि- -धि
 त्रिमा २, १५१.

a) मलो. वरा. । b) गोत्रा १, १, २५ । c) °देव° इति गोत्रा १, १, २५ । d) रि ५, ८४, १ । e) श्व ८, ६४, १ । f) पा. ? दनि. शोषो वा मौरिय. प्राकृततरं क. वा इ. । विसर्गलोपे सत्युत्तराऽऽर्षः संधिध इ. (प्र. राती.; वेद. साग.) । g) पत. । h) पम. । i) ममाहारे हव. । j) वैतु. उम. पदद्वयमिति । k) °नं ना° इति विता. दनि. शोषः इ. (प्र. चण्वा.) । l) प्र. सत्य. रि. प्रणवहंस-रूप- > -प्रेण- ।

ब्रह्म-बोधक- -काः सार २७८ः
२१.

ब्रह्म-भाव- -वम् नाप ३, ८०;
त्रिवि १, २; १भा २५; -वे जाद
१, १४; -वेन नाद २०.

ब्रह्मभाव-मय- -यम् म
२; पत्र ३, ४.

ब्रह्म-भावन- -नम् ते ६, १००.

ब्रह्म-सावना- -नया पप ४१८ः
२०.

ब्रह्म-भुवन- -नात् गी ८, १६.

ब्रह्म-भू- -भूः दे १३.

ब्रह्म-भूत- -ताः ते ४, ३३; या २,
१८; भव ३, ७; गी ५, २४; १८,
५४; -तम् गी ६, २७; -ताय पे
४, ६.

ब्रह्मभूत-त्व- -त्वात् १भा
२६.

ब्रह्मभूता(त-आ)भन-
-त्मनः कठ १३.

ब्रह्म-भूय- -याय जा ५; नाप
४, ३२; ५, १५; पप ४१९ः ८;
कठ ४२; ग १६; या २, १; वि
२५; सिशि ३८३ः ७; गी १४,
२६; १८, ५३.

ब्रह्म-भूयस्- -यसे नाप ५, १८.

ब्रह्म-भेद- -दः त्रिवि ४, ३.

ब्रह्म-भ्रूण-वीर-हत्या- -त्यायाः
वि २५.

ब्रह्म-भण्डल- -सम् व ४४२ः
१३; १४.

ब्रह्म-मन्त्र- -न्त्राः भ १, ५.

ब्रह्ममन्त्र-तस(>) वृजा ३,
२८.

ब्रह्म-मय- -यः कौ १, ७; योशि
६, ३२; ग ५; -यम् वृजा ६, १२;
नृप ५. ८; ते १, २९; ६, ३८^१.

सी ३३.

ब्रह्ममयी- -यी विषा १;
-यीम् ते १, ४७^७.

ब्रह्ममय-वैकुण्ठ- -ण्ठम्
त्रिवि ५, १३.

ब्रह्ममयवैकुण्ठ-वासिन्-
-सिभिः त्रिवि ६, २१.

ब्रह्म-मात्र- -त्रः ते ३, २१;

-त्रम् ते ३, ३२; ५, ३०^३; ६,
४२; ४७^३; ४८^३; ४९.

ब्रह्ममात्र-क- -कम् ते ६,
१०३.

ब्रह्ममात्र-त्व- -त्वात् ते ३,
३५; ५, १७.

ब्रह्म-मान- -नेन त्रिवि ३, ४.

ब्रह्म-मार्ग- -र्गे जा ६; मि १५;
पप ४१९ः २.

ब्रह्म-मुख- -त्वात् सु १, २, ७.

ब्रह्म-मूर्ति- -तैयः पा ३, १०.

ब्रह्म-मूर्धन्- -र्धानम् वउष, ३१.

ब्रह्म-यज्ञ^१- -ज्ञः मैत्रि १, १;

पाशु १, १६; -ज्ञम् नाप ४, ३८.

ब्रह्मयज्ञ-क्रिया-युक्त- -क्तः
पाशु १, १९.

ब्रह्मयज्ञ-मय- -यम् पाशु १,
१७^३.

ब्रह्म-यथास्- -थाः कौ १, ५९^७.

ब्रह्म-योग-युक्ता(क-आ)मन्-
-त्मा गी ५, २१.

ब्रह्म-योगि- -यिः मना २,
७५^९; -निम् मुं३, १, ३; शे ५, ६;
मैत्रि ६, १८; कै १, ६; नृप ३, ४.

ब्रह्मयोगि-त्वरूप(>) पा-
-पाम त्रिता ५, २१; वपू २, २.

ब्रह्म-रन्ध्र^१- -न्ध्रम् हं६; शां १,
४; योशि ६, ३४; यो २, ३६; जाद
६, ३५; ३६; वरा ५, २३; सौ ३,

१; योरा १६; -न्ध्रस्य वरा ५, ३०;
-न्धात् त्रिवि ५, १२; योशि ६,
३३; भा ३८; पित्र १, ९; -न्ध्रे

त्रिमा २, १५१; योचू ६; रार
२, २३; वा २९; शां १, ४^७;

योशि ६, ४७; कालि ४०१ः १;
पी ४२१ः १; श्या १; तारा ८३ः

१; -न्ध्रेषु ध्या १०४.

ब्रह्मरन्ध्र-गत- -तम् वरा ५,
७०.

ब्रह्मरन्ध्र-गामि(न् >) नी-
नी अता ५.

ब्रह्मरन्ध्र-निवासि(न् >)-
नी- नीम् योशि ६, १९.

ब्रह्मरन्ध्र-पर्यन्त- -न्तम् हं
९; भा ३८; मं १, २, ६.

ब्रह्मरन्ध्र-मुख- -खम् त्रिमा
२, ६४; जाद ४, १३.

ब्रह्मरन्ध्र-समन्वि(त >) ता-
ता यो १, ८३.

ब्रह्म-रस- -रसः कौ १, ५१^९.

ब्रह्म-रात्रि- -त्रिः सार २४१ः
२३; २४२ः १; ४; ११.

ब्रह्म-रुद्रा(द्र-आ)दि- -वन्दि-
(त >) ता- -ताम् गौ २७^६.

ब्रह्म-रूप, पा- -यः स ३७९ः ५;
-यम् तर ३, २४; वि ११; १४;

-या सर २, १०; -पाः कृ १३.

ब्रह्मरूप-ता- -तया १भा १;
वरा २, १४; -या सां५ ५, ११६.

ब्रह्मरूप-धृ- -धृक् कृ १९.

ब्रह्मरूपिन्- -पिणे नापू ३,
१५.

ब्रह्मरूपिणी- -णी लु १६;
योशि ६, ५; नीम् कालि ४०१ः १.

ब्रह्म(झ-झ)र्षि- -र्षयः शे ४, १५;
सु ५८.

a) 'वम् हृदम् इति निसा., अख्या. संदि. । b) 'ज्ञानम्' इति अख्या. । c) 'ह्रतेजः इति आन., शांश्या ३, ५ । d) तैशा १०, ६३, १ । e) 'गन्धा इति निसा. संदि., अख्या. । f) 'ब्रह्म सः' इति वृत्तिते निसा. मुपा. यनि. मोषः द. (द्र. शांशा ३, ५) । g) 'ह्लादिचि' इति निसा., 'ह्लादिसेवि' इति आन. ।

महर्षि-गृह- -हे भि ध.
 महर्षि-न्यास- -सः द ६.
 मह-लिङ्ग- -ङ्गम् लिं ३११:२.
 मह-लोक- -कः प्र१, १५, १६;
 मुं १, २, ६; छां ८, ४, १-३, ५, ४;
 वृ ४, ३, ३२; ४, २३; ते ६, १८;
 गु १७; -कम् प्र ५, ५; छां ८,
 ३, २; ४, ३; १३, १; १५, १; कौ
 १, ३; मैत्रि ६, ३०; मना २,
 ३६५^०; भ २, २५; गोउ ५२;
 योरा २०; सार २२६: १९;
 २३५:३; मृ ८; गार४०८:२०;
 वपू १, ६; -कस्य कौ १, ३; -का:
 वृ ३, ६, १; सुवा १०; -कान् वृ
 ६, ३, १५; -के क १, २, १७; ३,
 १६; २, ३, ५; छां ८, ५, ३; ४;
 १२, ५; वृ ४, ३, ३३; मना २,
 १२, ३६^०; सुवा १२; इ ११:२१;
 गोच ६७: ४; ६९: १४; सार
 २४२:१४; गु ४०; -केपु मुं ३,
 २, ६५^०; वृ ३, ६, १; ६, २, १५; कै
 १, ४५^०; सुवा १०; भव ३, ३३५^०.
 महलोक-काम- -मः भ २,
 २५.
 महलोक-ग>गा- -गा:
 गोच ६९: १८.
 महलोक-ज्ञान- -नम् शां
 १, ७, ५२.
 महलोक-पदा(द-श)न्वे-
 विन्- -यी अना २.
 महलोक-स्थ- -स्था: मु १,
 २, ७.
 मह-यत्- -वान् तै ३, १०, ४.
 मह-यन- -नेपुमि वि ६, २, १; २३.
 मह-यर- -रम् गोच ६९: १८.
 मह-वर्चस्-
 महवर्चस्विन्- -स्वी मु
 २०५: ४.

मह-वर्चस्^१- -सम् तै १, ३, १;
 छां ३, १३, ३; ५, १२-१७, २;
 मना २, ३६५^०; अथ ७; कौ २,
 १५; सार २३५:३; -सेन तै १,
 ३, ४; ३, ६-९, १; छां २, १६, २;
 ३, १८, ३-६; ५, १९-२३, २; वृ
 ६, ४, २८; मना २, ७७५^०.
 महवर्चस्विन्- -स्वी छां २,
 १२, २; ३, १३, ३.
 महवर्चसो(स-उ)पासक-
 -का: सार २७३: ६.
 मह-वश- -शः २ प्र ३४: २.
 मह-वस्तु- -स्तु पाशु २, २५.
 मह-वाच्- -वाक् अथ १.
 मह-वादिन्- -दिनः छां २, २४,
 १; श्वे १, १; ३, २१; मै ५, ७^०;
 मैत्रि ६, ७^०; वपू २, ५; १७; ३,
 ३; सी ८; राउ २, ४; १संन्या १,
 १; भ्या १४; गोउ ४४; ४५;
 २ प्र ३४:१०; ३६:१५; कथु १,
 १; वपू २, २; -दिना शु ३, १६;
 -दिनाम् तै १, २२; २७^०; नाप
 ५, ५; रा १, ३; गी १७, २४;
 -दिभिः प्रवि २; ४; द १९; शारी
 ४; गोउ ५३; वरा २, ५२; -दिषु
 इ १७: २; १ प्र ३१: १; ६.
 महवादिनी- -नी वृ ४, ५, १
 मह-वार्ता- -तायाम् तै १, ४६.
 मह-विग्रह- -हे वरा ३, १६.
 मह-विज्ञान- -नम् नाप ६, २१.
 महविज्ञान-लाभ- -भाय
 नाप ६, ३२.
 महविज्ञान-विहीन- -नस्य
 पाशु २, ३७.
 महविज्ञान-संपन्न- -प्र:
 पाशु २, ४६; वरा २, २७.
 महविज्ञानिन्- -निनाम्
 नाप ६, १५.

मह-विद्- -विक् तै २, १, १; छां
 ४, १, २; वृ ३, ७, १; ४, ४, १; जा
 ५; घ्या ६; त्रिवा २, ५५; मं २,
 ३, २; ५; शां ३, १; महा ४, ८५;
 १आ २३; पाशु २, २७; ३९; भ
 २, १२; गोउ ३०; या २, १; वरा
 ४, १; शा ३७; मु २, २, ६४; य
 १; सु २९३: १; आथ ३९९:
 १८; गी ५, २०; -विदः क १,
 ३, १; मुं १, १, ४; छां ४, १४,
 २; वृ ४, ४, ८; श्वे १, १; ७; मैत्रि
 ६, १८; जा २; प्र ३, ५; नाप ३,
 ८५; राउ ३, १; ऐ १०; १आ ८;
 वरा १, ४; सु २९४: १४; भव
 २, ६; गी ८, २४; -विदम् नाप
 ६, १७; १आ १४; -विदाम् मुं ३,
 १, ४; अक्ष १, १; ३, १९; वरा २,
 २२; पा ३, ६; य १; सु २९३: १;
 शि ५, ४०; -विद्भिः जाद ७, ३.
 महविच्-छेष्ट- -ष्टः १आ
 २२.
 महवित्-तम- -मः अथ
 ३, ३; १आ २०; -मम् १आ
 १६; -मैः शारी ३.
 महविद्-उत्तम- -मः १आ
 २०^०.
 महविद्-दृष्टि-नोचर- -रा:
 वरा ४, ४४.
 महविद्-वर- -रः वरा ४, १.
 महविद्-वरिष्ठ- -ष्ठः वरा
 ४, १.
 महविद्-वरीयस्- -यान्
 वरा ४, १.
 महविन्-मात्र- -श्रेण पै ४, १.
 मह-विद्या^१- -द्या वृ १, ४, १;
 मैत्रि ६, २९; -द्या छां ७, १, ४; मै २,
 ३; मैत्रि २, ३; भ २, २८^१; -द्याम्
 मुं १, १, १; २; ३, १; ३, २, १०;

a) शौ १९, ७१, १। b) तैया १०, १०, ३। c) °के तु इति तैया १०, १०, ३। d) पा ५, ४, ७८।
 e) तैया ३, ७, ६, २०। f) राजयोगि° इति रुग्णा। g) गपू. (५ १७६) उत्तम-> -मः इत्यत्र मरथ. यनि. शोधः ६.।

छां ७, १, २; २, १; ७, १; कै १, १;
 अ १; शां २, १; अक्ष १, १७;
 छ, ३८; अक्षि १; कर् १; वरा
 १, १; २, १; शा ११; २, ४; ह
 १; १९; गरु १२; २, ५; वषट् ५;
 १२; कथु २, २; चायाः त्रिवि
 १०; १म ३० : ४.

महाविद्या-कल्प-तरु-वन-
 नैः सि २, १०.

महाविद्या-तरङ्गिणी- -शीम्
 त्रिवि ६, २१; -गमाः सि ३, ४.

महाविद्या-तीर- -रे त्रिवि
 ६, २१.

महाविद्या-परीक्षान- -नम्
 शु ३, १४.

महाविद्या-पाद-वैकुण्ठ-
 ण्डम् त्रिवि ६, २३.

महाविद्या-प्रबोध- -धः हं १.
 महाविद्या-प्रवाह- -हैः त्रिवि
 ६, २१; सि २, २.

महाविद्या-मय- -यैः त्रिवि
 ६, २१; सि २, ३; ४, ८.

महाविद्यामया(य-अ)-
 नन्त-परिष- -याः सि ३, २.

महाविद्या-विद्- -विम् मैत्रि
 ४, ४०.

महाविद्या-वैकुण्ठ- -ण्डम्
 त्रिवि ६, २१.

महाविद्या-साक्षा- -रः त्रिवि
 २, १.

महाविद्या-सेविन्- -विनः
 सार २, ५६ : २२.

महा-विधान- -नम् चू २१.
 महा-विशारद- -नैः ते १, ४१.

महा-विषय- -यम् मैत्रि ६, ३५.
 महा-विष्णु-

महाविष्णु-मय- -यः दृष्ट ९.

महाविष्णवा(ष्णु-आ)दि-
 -दिभिः पं १३.

महाविष्णवादि-माण-
 -णानाम् वउ ३, ४.

महाविष्णवा(ष्णु-आ)दिक-
 -काः गु ३०.

महा-विष्णु-पुरन्दरा(र-आ)द्य-
 (दि-अ)मर-वर- -सेवित- -तम्
 म २, १८.

महा-विष्णु-महेश- -शानाम्
 वृजा ४, ३६.

महा-विष्णु-महेश्वर- -राः वृजा
 ६, १२; वृषू ५, ८; शि २, ५;

-रान् नाप ४, ३८.

महाविष्णुमहेश्वर-स्व- -स्वम्
 पत्र २.

महाविष्णुमहेश्वरा(र-आ)-
 र्मक- -कम् पाशु १, १४.

महाविष्णुमहेश्वरा(र-आ)द्य-
 -द्या म ४९ : १५.

महा-विष्णु-महेश्वर-सदाशिव-
 विन्दु-मेलन- -रूप(व>)गा-

-पातारा ८३ : २.

महा-विष्णु-रुद्र- -द्राः योचू ७२;
 अक्ष १०; वउ ४, ४१; -द्राणाम्
 श १.

महाविष्णुरुद्र-तेजस- -जसे
 व ४३५ : २३.

महाविष्णुरुद्रा(द्र-अ)तीक्ष-
 -तम् म १, १.

महाविष्णुरुद्रा(द्र-आ)दि-
 -द्वयः सार २२१ : ४; २३१ :
 २; २४५ : १९; -रीनाम् मं ३,
 १, ३.

महा-विष्णु-रुद्रे(द्र-द)न्द्र- -न्द्राः
 अ ३.

महा-विष्णु-रुद्रे(द्र-द)श्वर-सदा-

शिव-महाकाल-चित्परा(र-अ)-
 म्वा-रूप- -पः कामे १०.

महा-विष्णु-शिव-रूप-
 महाविष्णुशिवरूपि(र>)-
 णी- -णी वृउ ९, ६.

महा-विष्णु-शिवा(व-आ)र्मक-
 -कम् वृजा ४, १०; वि १२.

महाविष्णुशिवात्मिका-
 -काम् भव २, ५५.

महा-विष्णु-शिवा(व-आ)दि-
 -दीनाम् योरा ३.

महा-विष्णुवी(ष्णु-ई)श-हीन-
 -नः ते ५, ७२.

महा-विष्णुवी(ष्णु-ई)वाने(न-इ)-
 न्द्रा(न्द्र-आ)दि- -दीनाम् नि
 १६; ४५.

महा-वृत्त- -तम् नाप ४, ३५.
 महा-वृत्ति- -त्याः ते १, ४२.

महा-वेद(॥)- -दृश्य २म ३३, १९.

महा-वेदव- -नम् अक्ष ४, ३८;
 पाशु २, ३८; शा २४.

महावेदन्-मात्र- -श्रेण कद९.
 महा-व्यतिरिक्त- -कम् नाप ५,
 १; त्रिवि ३, २; ४, ३.

महा-शक्ति- -क्तिः नि १९.

महा-दाङ्गर-विष्णु-रूप(व>)गा-
 -रा गार ४०७ : ४.

महा-शब्द- -शब्दः वा १, ६;
 -शब्देन शु ३, ४; ८; नाप ८, ४.

महाशब्द-वत् शम् २, ३, ५.
 महा-शापिन्- -पिने चू २१.

महा-शाला- -शाम् मैत्रि ६, २८.

महा-संज्ञित- -ज्ञिः व १०.

महा-संयद्- -सदिक १, ३, १५.
 महा-संयत्- -स्यः छां २, २३, १.
 महा-संयत्तां- -तांम् गी ६,
 २८१.

a) छा इति शिवा. यत्रि. शोधः द्र. (तु. अश्या.) । b) छायाम् इति अश्या. । c) विदः इति सात. (वेदु. JC.) । d) षयः इति सात. । e) क्षतम् इति अश्या. । f) =अपवैद- । g) संयोगम् इति SCHUR. पागे. [वेदु. वे. (NIA २, २११)] ।

ब्रह्म-संगत- -तः गी ४४^६.
 ब्रह्म-संज्ञा-
 ब्रह्मसंज्ञित- -तम् पं १३^०.
 ब्रह्म-सत्ता- -त्ता आबो १२.
 ब्रह्म-सदन- -नम् जा १^३; राउ १, १^३; ता १, १^३.
 ब्रह्म-संध्या-क्रिया- -या पाशु १, १८.
 ब्रह्म-संपत्ति- -त्तिः पाशु १, २२.
 ब्रह्मसंपत्ति-कारि(न् >)णी-
 णी पाशु २, १.
 ब्रह्म-सर्ग- -र्गोः अध्या ४६;
 सर ३, १८; २२.
 ब्रह्म-सलोकता- -ताम् मना १, १३५^६.
 ब्रह्म-सवन- -नम् गोपू २५^६.
 ब्रह्म-साक्षात्कार-
 ब्रह्मसाक्षात्कारा(र-अ)भुभव-
 विशेष-बोध-सारतरा(र-अ)-
 नन्त-आकार- -रैः सि ६, ७.
 ब्रह्म-सूचन- -नात् आह ३.
 ब्रह्म-सूत्र^१- -अम् आह ३; पत्र ३, १०; पाशु १, १६; १७^१; भा ३३३.
 ब्रह्मसूत्र-पद- -दम् पाशु २, ६; -रैः गी १३, ४.
 ब्रह्म-स्तु(त >)ता- -ताम् दे ६.
 ब्रह्म-स्पाण- -नम् ध्या ६५^१;
 -त्रे ब्रवि ७६.
 ब्रह्म-स्पावरा(र-अ)त्मन्-
 -त्मा सी १०.
 ब्रह्म-स्वरूप- -रः राधा ४, ३;
 -पम् मृपु १, ३; नाप ९, १^३; ता १, २^३; ति ३१० : २१; वपू १, ६.
 ब्रह्मस्वरूप-अध्या- -नम्

त्रिवि ४, ३.
 ब्रह्मस्वरूप-विज्ञान- -नात्
 पाशु २, ४०.
 ब्रह्मस्वरूपा(प-आ)चार्य-
 -र्यः म ४८ : ८.
 ब्रह्मस्वरूपिन्- -विणम् राउ ४, १^६.
 ब्रह्मस्वरूपिणी- -णी दे १; -गीम् द्या १.
 ब्रह्म-स्वरूपक- -कम् योशि ५, १
 ब्रह्म-स्वा(स्व-आ)त्मन्-
 ब्रह्मस्वात्म-ता- -तया पाशु २, ४१^६.
 ब्रह्म-हत्व- -स्यात् श ३६^१;
 १अव ३३.
 ब्रह्म-हत्या- -त्या स ३७९ : १४;
 -त्याम् मना २, ३८५^१; वृजा ८, ३; वृपू ५, १३; राउ १, २; कलि ३; मृ ५; विद्या १; -त्यावाः कै २, ५^६; रार ५, १७^१; म २, २२;
 नाठ ३, ७; तुल ७२ : १; स ३८० : १.
 ब्रह्महत्या(त्या-आ)दि- -दि
 वृजा ६, ५.
 ब्रह्महत्यादि-दोष-
 संभव- -वात् वसू १०.
 ब्रह्महत्यादि-पातक- -कैः
 ह १२; दसा ३.
 ब्रह्महत्यादि-पाप- -पेभ्यः
 राउ ३, ६.
 ब्रह्महत्यादिपाप-
 नाशक- -कम् वृजा ६, ७.
 ब्रह्महत्या-पूत- -तः रार ५, १७^१.

ब्रह्महत्या(त्या-अ)भ्रमेधा-
 (ध-आ)घ- -घैः त्रिवि ५१.
 ब्रह्महत्या-सहस्र- -स्ताणि
 राउ ५, ८.
 ब्रह्महत्या-सुरापान-स्वर्ण-
 स्तेय-गुरुतल्पगमन-तत्सं-
 योगि-पातक- -केभ्यः पै ४, २३.
 ब्रह्महत्या-सुरापान-स्वर्ण-
 स्तेय-गुरुदारगमन-तत्संयोग-
 पातक- -केभ्यः रुजा ३, १.
 ब्रह्म-हन्- -हा छां ५, १०, १;
 मना २, ६४५^१; पदं ४; सुबा ४;
 रुह २५; शा २६; वि ३३; सि ७, ६२.
 ब्रह्मा(द्वा-आ)कार- -रम् ते ४,
 ५१; अज १, १६; -रेण ते १, ५०.
 ब्रह्माकार-ता- -तया ते १, ३७.
 ब्रह्मा(द्वा-आ)कार(र^१)रा-
 ब्रह्माकार-मनो-वृत्ति-
 प्रवाह- -हः सु २, २, ५३.
 ब्रह्मो(द्वा-आ)काश- -शः नाप ८, २०^१.
 ब्रह्मा(द्वा-आ)ख्या-
 -स्याम् ते १, ४३.
 ब्रह्मा(द्वा-आ)सि- -रनी श २६;
 गी ४, २४; २५.
 ब्रह्मा(द्वा-आ)ङ्ग-लक्षण-युक्त-
 -क्तः पाशु १, १६.
 ब्रह्मा(द्वा-आ)ण्ड^१- -ण्डः यो २,
 ४९; -ण्डम् आह १; पदं १;
 नाप ३, ८६; त्रिवि ३, ५; ६, १;
 अध्या ८; यो ३, २२; अता ९;

a) ज्ञानसं इति निशा., अघ्या. संति., *तम्रं इति ज्ञान. (वृ. नादी.!) च यनि. शोधः इ. । b) 'सत्य-
 विशुद्धम्' इति निशा. संति. । c) तैआ १०, १, ११ । d) 'सद' इति निशा. । e) 'द्वारम्रम्', *द्वारम् इति
 अघ्या. संति. । f) परमं इति अघ्या. । g) परज्योतिःस्व' इति ज्ञान., परब्रह्मस्व' इति ज्ञान. संति. । h) 'द्वारम्रम्'
 इति अघ्या. संति. । i) 'त्यावाः इति निशा. संति. । j) तैआ १०, ४८, १ । k) 'त्याम् इति ज्ञान., अघ्या. ।
 l) 'त्याम् इति अघ्या. । m) 'त्याम् प' इति अघ्या. । n) तैआआ १०, ६४ । o) तस. । p) घस. । q) *कारः
 इति अघ्या. ।

राधा १,५; पित्र १,१; २^३; ६;
 ८^३; ९^१; -ण्डस्य त्रिवि ६, ६;
 राउ ४, ३६; कर १६; पित्र २,१;
 २; १०; ३,९; -ण्डात् त्रिवि ६,
 १; गु ७; -ण्डानाम् सार २५८:
 १३; -ण्डानि कृपु ११; सार
 २२१:३; २५८:१४; -ण्डे सार
 २२३: २१; २२४: १४; १६.
 ब्रह्माण्ड-गण्ड- -ण्डम् वउ
 ४,३२.
 ब्रह्माण्ड-गोलक- -के गुणो
 ४२१: ६.
 ब्रह्माण्ड- -तद्-गत-लोक-
 -कान् प ३, १.
 ब्रह्माण्ड-निल(य>)या-
 -०० ये व ४३६: २१.
 ब्रह्माण्ड-ब्रह्मरन्ध्र- -न्ध्राणि
 प १, २९.
 ब्रह्माण्ड-भाण्डो(एड-उ)-
 दर-रूप-धारि(रु>)णी-
 -०० णि व ४३१: १०.
 ब्रह्माण्ड-मय- -य: यो ३, १३.
 ब्रह्माण्ड-वार्तिन्- -र्तिन: सार
 २२४: १३.
 ब्रह्माण्ड-स्वरूप- -पम् त्रिवि
 ६, १; २.
 ब्रह्माण्डा(एड-आ)खण्ड-
 विग्रह- -हम् प ११.
 ब्रह्माण्डा(एड-आ)दि- -दि
 क १५.
 ब्रह्माण्डा(एड-आ)न्तर-गत-
 -तम् वउ ३, २०; २१.
 ब्रह्माण्डा(एड-आ)र्थ- -र्थम्
 गु ८.
 ब्रह्माण्डा(एड-आ)वरण-
 -णम् त्रिवि ३, ५.

ब्रह्माण्डा(एड-आ)श्रय- -यम्
 पित्र २, ९.
 ब्रह्मा(ह्र-आ)त्मक- -कम् ते ६,
 ५२; पाशु २, २३.
 ब्रह्मात्मिका- -का: राउ १,
 २^४.
 ब्रह्मा(ह्र-आ)त्म-ज- -जम् नाप १
 ब्रह्मा(ह्र-आ)त्मन्- -त्मना पाशु
 २, ३९; -त्मनो: अध्या ४३.
 ब्रह्मात्म-योधि(रु>)नी-
 -नीम् रुह ३६.
 ब्रह्मात्म-विद्- -वित् पाशु
 २, ३५.
 ब्रह्मात्म-सच्चिदानन्दारमक-
 मन्त्र- -न्त्रम् विद्या १.
 ब्रह्मात्म-संनिधि- -धौ हं २०.
 ब्रह्मा(ह्र-आ)सै(स-ए)कत्व-
 विज्ञान- -नात् पत्र २, १^०.
 ब्रह्मा(ह्र-आ)त्रि-रवि-सवितृ-भा-
 -गैव- -वा: ह ६.
 ब्रह्मा(ह्र-आ)धर्व-प्रा(ण>)-
 णा- -णाम् तुल ७०: ३१^०.
 ब्रह्मा(ह्र-आ)दि- -दय: त्रिवि
 ६, १; वा १५; त्रिता ४, २१;
 दे १७; वरा १, १; गौच ६६:
 १४; ६८: ६; -दि भव २, ४२;
 -दिना सार २५६: ७; -दिभि:
 सौ ३७; वा ३; गौच ६५: ३;
 नापु ४, २६; सार २३५: १६;
 वि १६; -दीनाम् नि १६; ते
 १, २४; त्रिवि ४, १३; रापु १,
 ११; पत्र २; सार २५९: ६.
 ब्रह्मादि-कार्य-रूप- -पाणि
 जाद ८, ८.
 ब्रह्मादि-कीट-पर्यन्त- -न्ता:
 आवो १४.

ब्रह्मादि-पिपीलिका-पर्यन्त-
 -न्तम् ससा १, २६.
 ब्रह्मादि-भोग- -भोग्य: जाद
 ६, ४६.
 ब्रह्मादि-लोक-पर्यन्त-
 -न्तात् जाद २, ६^०.
 ब्रह्मादि-वन्दित- -तम् वृजा
 ८, ६; वृपू ५, २०; वउ ५, ३०.
 ब्रह्मादि-स्तम्ब-पर्यन्त-
 -न्त: सांका ५४; -न्तम् पे २,
 ४६; अध्या १९.
 ब्रह्माद्या(दि-आ)चरण- -णम्
 ग १८.
 ब्रह्माद्यै(दि-ये)धर्व-
 ब्रह्माद्यैधर्वा(र्व-आ)भा-
 सिद्ध-संकल्प-बीज- -संताप-
 -पम् नि ४७^०.
 ब्रह्मा(ह्र-आ)दित्य- -त्य: इ १८:
 १९.
 ब्रह्मा(ह्र-आ)द्य- -द्यम् मन्त्रि
 १६; चू १६; -प्या: ते १, ४५.
 ब्रह्मा(ह्र-आ)द्वैत- -द्वैतम् त्रिवि
 ४, ३.
 ब्रह्मा(ह्र-आ)धिपति- -ति: मना
 २, २१७^४.
 ब्रह्मा(ह्र-आ)धिपत्य- -त्यम् वपु
 १, ६.
 १ ब्रह्मा(ह्र-आ)नन्द- -न्द: १ अथ
 २७; -न्दे भावो १७; १ अथ २५.
 २ ब्रह्मानन्द- -न्द: सार
 २८९: ११; -न्दम् महा ४, ७०;
 क ३४; वरा २, २०.
 ब्रह्मानन्द-कर(र>)ि- -री
 सु १, १, २५.
 ब्रह्मानन्द-कला- -ला व
 २२.

1) ण्डं षं इति श्रम्या । 2) एलकः इति श्रम्या । 3) नम् इति निसा । 4) पा. ई मूलतः यजुर्मनसं समाश्रयर्षे इत्येवं सतः स्थाने यजुर्मनसां भाश्रयर्षे इत्येवं श्रेयसयोजितः णो ब्रह्माश्रयर्षे (=मुषा) इति शोषाऽभासः द । 5) स चोर्णं मूलपाठमनु प्रतिशोष्यः । 6) श्वावलोक इति श्रम्या । 7) वध.>पच.>कच.>पच । 8) षवः इति श्रम्या. संटि. । 9) तेभ्य १०, ४७, १ । 10) कच. । 11) =ब्रह्मानन्दवत्- ।

ब्रह्मानन्द-कारण- -णम्
 गोच ६७ : ३.
 ब्रह्मानन्द-कुटुम्बक- -कः ते
 ४, ५९.
 ब्रह्मानन्द-जन- -नैः ते ४, ६१
 ब्रह्मानन्द-निरन्तर- -रः ते
 ४, ५९.
 ब्रह्मानन्द-परं-उयोतिस^१-
 -तिः ते ४, ५९.
 ब्रह्मानन्द-भय- -यः ते ४,
 ३३; त्रिवि २, १६; -यान् त्रिवि
 ७, १.
 ब्रह्मानन्दमय-विमान-
 कोटि- -दिभिः त्रिवि ७, २१.
 ब्रह्मानन्दमया(य-अ)-
 नन्त-निरतिशयानन्द-सागरा-
 (र-आ)कार- -रम् सि १, ७.
 ब्रह्मानन्दमया(य-अ)-
 नन्त-प्राकार-आसाद-तोरण-
 विमानो(न-उ)पवनान(न-आ)-
 वलि, ली- -लिभिः त्रिवि ५,
 १३; -लीभिः सि १, ८.
 ब्रह्मानन्द-रस-
 ब्रह्मानन्दरस-क्रीडा-
 वन- -नैः सि ५, ९.
 ब्रह्मानन्दरस-निर्भर-
 -रैः त्रिवि ७, ५०.
 ब्रह्मानन्दरस-प्र(मा>)-
 म- -भः ते ४, ५८.^b
 ब्रह्मानन्दरस-भर- -रः ते
 ४, ६०.
 ब्रह्मानन्दरसा(स-अ)आ-
 (अ-अ)द- -दः ते ४, ५९.
 ब्रह्मानन्दरसा(स-आ)-
 रूढ- -दः ते ४, ६०.
 ब्रह्मानन्दरसो(स-उ)-
 द्राह- -हः ते ४, ६०.

ब्रह्मानन्द-रूप- -पः गोच
 ६७ : ७.
 ब्रह्मानन्द-विभूति- -तिम्
 त्रिवि ७, १.^a
 ब्रह्मानन्दविभूति-
 विशेष- -यान् त्रिवि ७, १.
 ब्रह्मानन्द-शिवा(व-आ)-
 नन्द^c- -न्दः ते ४, ५८.
 ब्रह्मानन्द-शिवा(व-अ)-
 चन^d- -नः ते ४, ५७.
 ब्रह्मानन्द-समष्टि-कन्द-
 -न्दम् सि १, ६.
 ब्रह्मानन्दा(न्द-आ)रमन्-
 -रमनि ते ४, ६१.
 ब्रह्मानन्दा(न्द-अ)नुभावक-
 -कः ते ४, ५८.
 ब्रह्मानन्दा(न्द-अ)मृत- -तम्
 राउ ४, ३
 ब्रह्मानन्दा(न्द-अ)मृतरसा-
 (स-अ)म्नोनिधि-तरङ्गिणी-
 -ण्याः सि ६, ११.
 ब्रह्मानन्दै(न्द-ए)क-चिद-
 घन- -नः ते ४, ६०.
 ब्रह्मानन्दै(न्द-ए)क-विग्रह,
 हा- -हः राउ २, २; हा विद्या १.
 ब्रह्मा(ह-अ)नन्दा(न्द-अ)शु-
 संजा(त>)ता- -ते तुल ७ १ : ८
 ब्रह्मा(ह-अ)नुवासन- -नम् नाप
 ४, ३७.
 ब्रह्मा(ह-अ)नुपुन-राधय^d-
 -वाः राउ २, ९३.
 १ ब्रह्मा(ह-अ)ब्रह्मन्^e- -ह अक्षि
 १, ४.
 २ ब्रह्मा(ह-अ)ब्रह्मन्^e- -हणी
 दे १.
 ब्रह्मा(ह-अ)भि(धा>)ध- -धम्
 मदा ५, ४३.

ब्रह्मा(ह-अ)निधेय- -यम् स
 ३७८ : ३.
 ब्रह्मा(ह-अ)मृत- -तम् मैत्रे २,
 ३; स्क १२.
 ब्रह्मामृत-रस- -सः ते ४,
 ५७; -से ते ४, ५७; ५८.
 ब्रह्मामृतरसा(स-अ)यन-
 -नः ते ४, ५६.
 ब्रह्मामृतरसा(स-आ)-
 सक्त- -क्तः ते ४, ५७.
 ब्रह्मामृतरसा(स-आ)-
 स्वाद- -दः ते ४, ५६.
 ब्रह्मा(ह-आ)यतन- -नम् ध्या
 ४०.^f
 ब्रह्मा(ह-आ)राधन-बुद्धि-
 ब्रह्माराधनबुद्धि-तस(>)
 जाद ७, ४.
 ब्रह्मा(ह-अ)गौल- -लम् यो २,
 ४१.
 ब्रह्मा(ह-अ)र्ह- -हैः कौ १, १६.
 ब्रह्मा(ह-अ)लंकार- -रण की १,
 ४.^g
 ब्रह्मा(ह-आ)वर्त^h- -ते द १.
 ब्रह्मा(ह-अ)वलोकन-धी-
 -धियम् वरा २, ८२.
 ब्रह्मा(ह-अ)वलोक-योग-पट-
 -टः निर्वा २९७ : ८.
 १ ब्रह्मा(ह-अ)रुⁱ- -खेण व
 ४५४ : २०.
 ब्रह्मरु-स्वरूप-
 ब्रह्मरुस्वरूपि(न>)-
 णी- -णीम् पी ४२१ : १.
 २ ब्रह्मा(ह-अ)रुⁱ> खा- -खाम
 पी ४२१ : १.
 ब्रह्मरुⁱ- -रुः प्र ३, २; वृ ३, १,
 २; -रुः कथु २, १; -रुः कथु ३,
 १, २; -रुः कथु २, १.

a) वस. वा कम्. वा । गप्. (वृ ३३६) उयोतिस-> -तिः इत्यत्र तस्य. यनि. क्षोभः द्र. । b) मद्रः इति
 अस्या. संटि. । c) कम्. > वस. । d) द्रस. । e) कम्. । f) विश्वस्य भाव^१ इति आन. । g) 'ब्रह्मार्थः' इति आन., अस्या. ।
 १) वस. । i) = प्राणगतम् - ।

ब्रह्मी/भू

ब्रह्मी-भूय अथवा ६१^६.

ब्रह्मे(ब्र-इ)न्द्र-रुद्रा(इ-आ)दि-

विभावित् - तः ते ५, ६२.

ब्रह्मे(ब्र-ई)शान-सुरन्द-पुरो-

गम-मैः त्रिवि १, १.

ब्रह्मे(ब्र-ई)शान(>)नी- -० नि
व ४६२ : ९.

ब्रह्मै(ब्र-ए)कता- -ता मैत्रि ६,
३५^६.

ब्रह्मै(ब्र-ए)कत्व- -त्वम् वृजा ७,
७.

ब्रह्मै(ब्र-ए)कपाद्- -व्यास-

-सम् त्रिवि २, १४^०.

ब्रह्मै(ब्र-ए)क्य- -क्यम् मं २, २,
४; मवा ७.

ब्रह्मो(ब्र-उ)हुप- -पेन थे २, ८;
भव ३, २५.

ब्रह्मो(ब्र-उ)द्भव- -वम् गी ३,
१५.

ब्रह्मो(ब्र-उ)घ^०- -घम् वृ ३, ८,
१; १२; आर्षे ७: १.

ब्रह्मो(ब्र-उ)द्वासन- -नम् नाप
४, ३८.

ब्रह्मो(ब्र-उ)पदेन- -नः शु १,
३; म २, ४.

ब्रह्मोपदेश-काल- -लः शु
१, ३.

ब्रह्मो(ब्र-उ)पनिपद्^०- -पद्:
पाशु १, ३०; ३२; -पदम् के शा^१;
छां शा^१; ३, ११, ३; मै मैत्रे आरु

रुजा नस् योचू वा महा १ संन्या.

अथ कुं सावि जाद जाया शा^१;

वपू १, १.

२ब्रह्मन्(२पति)- -हणः वृ १, २,
२१^१; मना १, ११^०; २, २०^१;

वृपू २, १७^०; त्रिता ३, २८^०;

प्रा १, ६^०; सु २९३ : १७^१;

लि ३१० : १^०; व ४२९ : १०^०;

व ५, ३०.

१-२बृहत्, १-२बृहती, बृहन्त-

√बृह द.

√बृहन्मानव्या^१ गोपू १३.

बृहस्पति^०- -तमे मना २, ६७^१; व

४३७ : १४; ४६५ : २; -ति:

प्र सुं मां शा^१ऽम्; तै शा^१ऽम्;

छां १, २, ११; वृ १, ३,
२०^१; १^१; मैत्रि ७, ९; मना

१, १^०; १२^०; जा १; अशि अ

वृजा वृपू शा^१ऽम्; नापशा^१ऽम्;

४, ३८; सी रा त्रिवि रार रापू

शा^१ऽम्; राउ १, १; शां पप अलसू

३आ पाशु पत्र त्रिता दे भा म्र म

ग मवा गोपू कृह दत्ता गरु अवि

पहंशा^१ऽम्; ता १, १; सर २, ९; ति

शा^१ऽम्; रा ४२३ : २^०म्; व

४६५ : २; पित्र शा^१ऽम्; -तिम् छां

४३, ११; गी १०, २४; -०ते व

४३७ : १३^०; -तेः तै २, ८, ४^१;

छां २, २३, १; मना २, ४८^०१.

बृहस्पति-भस्व(त>)ता- -ताः प्रा

१, १^०; २^०.

बृहस्पति-सम- -माद् १ संन्या २,

७१.

वैजवापि-, वैजवापायन- १बीज- ६.

वैन्द्व- विन्दु- द.

वैस्व- बिल्व- ६.

वोद्ध्वय-, वोद्धुम्, वोद्ध-, बोध-,

बोधक-, बोधयस्-, बोधया-,

बोधित- √बुध् द.

व्रं^० रार ३, १^०; व ४३६ : २१.

ब्रह्म-, १-२ब्रह्मन्-, ब्राह्म-,

१-२ब्राह्मण-ब्राह्मी- √बृह द.

ब्राह्मी(ः)कि^०क- -कम् व ४३३ :

२०.

बुवस्-, बुवाण- नाउ. द.

√मू, मूते छाग २५:१३; मवीति बम्

३, २, २२; मवीपि गी १०, १३;

मवीमि क १, २, १५; प्र ३, २;

छां ६, ७, ३; ७, २४, २^१; वृ २, ४,

१२; १३; ४, ५, १३; १४; मना २,

४६^०म्; नि ४; १योत १८; शु

३२; गी १, ७; मूमः २ प्र ३५ :

२२; शिष्ठ, ३२; मवीतु छां ४, ५,

२; ६-८, ३; १४, ३; ६, १, ७; ७,

१, ५; २-३, २; ४-५, ३; ६-१४,

२; ३४, २, १, ५, २, १-३; सूता १,

३; २, ३; मुवन्तु २ प्र ३५:२०;

मूदि के ४, ७; क १, १, २९; छां

५, ३, ६; ११, ६; वृ २, ४, ३; ३,

७, १; २; ८, २; ४, १, २-७; ३,

१४-१६; ३३; ५, ४; ६, २, ५;

६; मै १, १; मैत्रि १, २; जा ३;

४^०; वृजा १; वृपू ३, १; वृव

९, १५; मूहि-मूहि व ४५७:

१६; मूत वृव ९, १२; १९^१;

a) °क्षभू^० इति निता. यनि. शोषः द. (तु. अथ्या.)। b) °क्षेक्य^० इति सात.। c) °दं व्या^० इति अथ्या. यनि. शोषः द. (तु. निता.)। d) उप. <√वृ द। e) तैषा १, १८, १। f) तैषा १०, २३, १। g) श्र १, ४०, ५। h) श्र २, २३, १। i) श्र ९, ८३, १। j) पा. १ (तु. 'बृहन्मानव्या' इति निता., 'बृहदधनम्' इति आन., 'महन् मा' इति अन्ता. संटि.) ब्रह्म-भावना-> नया इति शोषः द. (तु. 'बृहद्-भावनया' इति नादो. पागे.)। k) वैप १ व २.। l) तैषा २, ६०। m) श्र १, ८९, ६। n) श्र १०, १५२, २। o) तैषा १०, १, १२। p) श्र २, २३, १५। q) शो ७, ५५, १। r) शो ६, ९६, १। s) श्र १०, ९७, १५। t) =बीजमन्त्रविशेष-। u) 'मै' इति अथ्या.। v) पा १ यनि. शोषः द.। w) श्र १०, १८, १। x) 'मनुबृहि' इति आन., अथ्या.।

सार २३०:१८; ब्रवाणि छां ४,
५, २; ६-८, ३; वृ २, १, १;
कौ ४, १; १८; क्षत्रवीत् के ३, ४;
८; क १, १, १६; ऐ २, ३, ५; छां

५, ३, ४; वृ ३, ३, १; ७, १^१; ४,
१, २^१-७^१; मै १, १; मैत्रि १, २;
४, ४^१; मैत्रे १, १; अशि १, १; वृजा

७, ५; अमृताम् ऐ २, ५; अमु-
वन् के ३, ३; ७; ११; ऐ २, १;
२^१; ३; वृ १, ३, १८; मै २, २;
मैत्रि २, ३; वृपू २, ८; वृउ १, १;

सी १^१; रार १, २; त्रिता २,
३५; अमृया: वृ ५, १४, ८; अमु-
वम् प्र ६, १; अमूम के ४, ७; वृ

३, ३, १; सुवीत छां ५, ३, ४; वृ
३, १, २; कौ २, ३^१; मृयात् छां
१, ७, ८; ८, ६; ८; २, २२, ३; ४^१;

३, १६, २; ४; ६; ४, ९, २; ५, २,
३; ८, १, २; वृ १, ४, ८; ३, ७, १;
४, १, २-७; ५, १४, ४; ६, ३, १२;

कौ १, ६; मवि ३४; नाप ४, ८;
१संन्या २, १०२; अव्य ७; रुह
१६; शा १८; योरा १८; मृयु:

छां ७, १५, ३; ४; ८, १, २; ४;
सुवीथा: छां ४, ४, २; मृया: शा
३३; सु १, १, ५१^१.

सुवत्-वत: क २, ३, १२; -वताम्
त्रिता ४, ३; -वन्तम् वृ ६, २, ८;
वि ३.

सुवाण,णा-गम् वृ १, ४, ८; -णा
सार २७७:२२; -णा: मैत्रि ७, ८.

मृं द ६^१.

मृत्-त्रिता ३, १७; सर २, ४^१; नापू ५,
११; आप ३९४:१३; वध २८:
९; मृत्-मृत् व ४५७: २.

मृत्-कार-रम् व ४५६: २१;

-रेण त्रिता ३, १८.

मृत्-आथ ३९८: २.

मृत्-व ४२७: २२.

भ

१भ^१

भ-कार-रम् रार २, १०१.

भं यो ३, १^१; आथ ३९६: १;

व ४३६: ६; हंपो ११.

भं-कार--०२ अक्ष ५.

२भ^१-भ: मैत्रि ६, ७५^१.

३भ^१-√भा द्र.

१भक्त^१-क्तानि त्रि १२.

२भक्त-√भज् द्र.

१भक्ति^१-

भाक्त-क्त: त्रसू २, ३, १६; -क्तम्

त्रसू ३, १, ७.

भाक्त-त्व-स्वात् त्रसू ३, १, ४.

२भक्ति-√भज् द्र.

√भक्ष्, > भक्षि, भक्षयति भव ४,
१७; भक्षयन्ति छां ५, १०, ४;

वृ ६, २, १६; भक्षय वृजा ६,
७; भक्षय-भक्षय व ४३५:

१०; अमक्षयत् वृजा ६, ८;

भक्षयेत् नाप ५, ३७^१; सार

२५५: ९; शि ६, ५९.

भक्षयिष्ये वृजा ६, ७.

भक्ष^१-क्षम् सार २८८: ४; -क्षा:

शि ७, १०७; -क्षै: शि ६, १६१.

भक्षण-णात् तुल ७०: ६; शि

५, १२; भव ४, १६.

भक्षय-वता सार २२६: २२;

-यत् वृ १, ३, ०४.

*भक्षया-

*भक्षयाम् (मृ/अ)स (भुवि),

भक्षयामास सार २७६: १६.

नक्षित-तम् पाठु २, ४१; ४२;

-ता: शि ७, १०७.

भक्षय^१-क्षयम् नाप ३, ६९.

भक्षय-भोज्य-ज्यानि सार

२८२: १४; शि ६, २; -जयै: सार

२३: ६.

भक्षयभोज्य-प्रदान-जै:

शि ६, १७७.

भक्षयभोज्य-स्थल-लम्

सार २२८: ७.

भक्षयभोज्या(ज्य-आ)दि-

भक्षयभोज्यादि-क-

-कम् ते ६, १४.

भक्षय-भोज्य-लेख-बोध्य-पेया-

(य-आ)रमक-कम् भा २०^१.

भक्षय-वत् शि ७, १०७.

१-३भग-, भगवत्-, *भगवत्-

√भज् द्र.

भगाल-लम् शि ७, ८१.

भगोस्-√भज् द्र.

भग्न-√भज् द्र.

√भज् (वधा.) > भाजि, भजते अक्ष

२, १९; शार २७; शिशि ३८१: १२;

कामे १; पित्र ३, ७; गी ६, ४७;

९, ३०; भजति त्रिवि ३, ७;

२१४, १०; गोपू ५; सु १, १,

२१४, २३; कालि ४०१: १३^१;

४०२: १^१; गी ६, ३१; १५,

१९; भजन्ते क १, १, १३; त्रिवि

३, ७; त्रि ९; सार २९०: १५;

शि ६, ३९; गी ७, १६; २८; १०,

८; भजन्ति अशि ४, २३^१;

त्रिवि ४, १३; वता १, १६; सार

२३५: ८; २८०: ५; य ३; सु

२९३: ३; वटु ३१६: १५;

- a) भक्षयिद्-> -विद् इति सात. । b) *भ इति अच्चा. यनि. शोच: द्र. (तु. निता ।) c) भ इति निता. यनि. शोच: द्र. (तु. आन.) । d) *प्यात् इति निता. संटि. । e) =धीजमन्त्रविशेष- । f) *मृत् इति अच्चा. । g) =वर्ण- । h) 'हं' इति अच्चा. संटि. । i) भगं- इत्यस्याऽऽधाराः । j) व्यु. इ =अक्ष- । k) व्यु. ? =उपचार- । l) 'भक्षयन्' इति अच्चा. । m) *कपञ् इति तान्त्रि. । n) व्यु. ? =कपाल- । o) 'भवति' इति तान्त्रि. । p) 'भवति, लभते' इति तान्त्रि. । q) 'भजति' इति आन. ।

गी ९, १३, २९; भञ्जि शु २, ५;
 रार २, २४; ३७; १०३; १०४;
 १अव १५; दे १५; व ४६५;
 १७; भञ्जामि १अव १७; गी
 ४, ११; भञ्जतु मना १, १०५;
 वृजा ३, ८; व ४६२: १४५;
 भञ्जन्तु शि ६, १५९; भञ्जस्व
 सु २, २, ७२; गी ९, ३३; भञ्ज
 मैत्रे २, २९; शां १, ७, ३९; महा
 ६, २८; वरा ४, २०; म ४८: ४;
 व ४२६: ११; भञ्जेत् ते १, २००;
 गोपू ४९; सु १, १, २४; भजेरन्
 सार २७२: १९.

भेजिरे सिशि ३८३: २; भजि-
 व्यय गोच ६९: १७.
 भाजयत् मना १, १२५; अ-
 भाजयत् वृ १, ५, १; २.

भञ्जक, क्ता- -क्तः वृजा ६; ११;
 गोट ३८; कृपु १८; राधा ४, ४;
 सार २३१: ११; भव ४, १८; पित्र
 ६, १८; गी ४, ३; ७, २१; ९,
 ३१; -कम् छां ५, १९, १; दशा
 ३; -क्ताः अशि ४, २२; सार
 २२२: ३; २२६: १९; २०;
 २२७: १२; २३१: ३; ५; १०;
 २३४: २१; २३६: १४; १८;
 १९; २२; २३८: १४; १६; २१;
 २३९: ७; २४०: १९; २०;
 २४१: २; १३; १७; २४२:
 १५; २४४: ५; २४५: १५;
 २४६: ४; २४९: १९; २५४:
 १२; २५६: ६; २३; २६७: ४;
 २७२: १८; २७३: २; ३; ५;
 २७५: २१; २७८: १३;
 २७९: ५; ७; २८०: १६; २८१:
 १४; २८३: ९; २८५: २०;
 २८६: ४; २८८: १९; २८८:
 १५; २९२: १८; वट ३१६:

१५; गी ९, ३३; १२, १; २०;
 -क्तात् सार २७८: २२; -क्तानाम्
 रार ४, १३; वृजा १, ४; सार
 २३०: २; २३१: ११; २३६:
 १४; १६; २४०: १५; २४४:
 १४; २५७: ९; ११; २५९:
 १५; २७३: २१; २७९: २;
 १२; २८१: २३; २८९: ७;
 वपू २, २; -क्ताय त्रिवि ४७;
 -क्ते अत्र २, २९; कृ ४; -क्तेन
 रापू ४, २०; -क्तेः अशि ४, १९;
 १संन्या २, ६७; सार २२७: १५;
 २३०: १९; २३१: ११; २३२:
 १९; वट ३१६: ११.

भक्त-काम-दुष्ठा- -याम् दे १५.
 भक्त-क्रिया- -याम् सार २७८:
 १३.

भक्त-जिह्वा(हा-अ)म-सद्-
 (न<)ना- -ना सार ३, ५.

भक्त-प्राण-पराय(ण<)पी-
 -णिव व ४३२: १४.

भक्त-प्रिय- -याव सार २६१: ७.
 भक्त-वासल- -लः त्रिवि ८, १२;
 राव ५, २७.

भक्त-वात्सल्या(ल्य-आ)विर्भा-
 य- -वाभ्याम् सार २४८: ५.

भक्त-व्यापिन्- -पी राधा ४, २२

भक्त-समाचार- -रः अत्र २, २९

भक्त-हृद्- -हृदि राधा ४, २२.

भक्ता(क्त-आ)नन्द-प्रद- -दाय
 सार २६१: ८.

भक्ता(क्त-अ)नुकम्पिन्- -म्पिनः
 शां ३, १; -म्पिनम् शां ३, ३; ग
 १३.

भक्ता(क्त-अ)नुग्रह-कारण-
 -यात् वृजा १, ३.

भक्ता(क्त-भा)ति-भजन- -नः
 वरा २, १.

भक्ति^१- -क्तिः श्रे ६, २३; वृजा ६,
 ११; वृजा १६; त्रिवि ५, ९; योशि
 २, २२; गोपू १४; कृ २५; शं
 ३७; वा ४०; कृ ६४: १०; सार
 २२०: ९; २७७: २३; २७९:
 २; २८८: १२; सु २९४: ८;
 सु ७६; भव २, ५९; ५, २०; गी
 १३, १०; -क्तिम् त्रिवि ८, १२;
 सिशि ३८१: ४; काम २५; भव
 २, ६०; गी १८, ६८; -क्तेः सार
 २२०: ७; -क्त्या कै १, ५; वृजा
 ३, २१; ५, १५; शं १७; त्रिवि
 ८, १२; वर ४, १२; राव ३, ६;
 वा २७; महा २, १४; योशि ५,
 ५७; ५९; ख ६; सु १, १, ४;
 वि २२; सार २४६: ११; २८८:
 १२; वि ३२; शि १, २; ४, २४;
 ६, १; १०: १७; ८८; १२१;
 १७३; १७४; २२४; ७, ५; सिशि
 ३८३: ३; गी ८, १०; २२; ९, १४;
 २६; २९; ११, ५४; १८, ५५.
 भक्ति-गम्य- -ग्यः सार २२०:
 २; -ग्यम् वृजा ६, ८; योशि ३, २३.
 भक्ति-ज्ञान-वैराग्य^२- -ग्यम्
 नाप ६, १^०.

भक्ति-ज्ञानवैराग्य-वासना-
 (ना-अ)भाव- -यात् त्रिवि
 ५, ४.

भक्ति-तप्त(>) वरा १, १६; सु
 १, १, १४; शि ६, १८५; २२०.

भक्ति-नि(श्र>)ष्ट- -ष्टः त्रिवि
 ८, १२; १३; -ष्टान् त्रिवि ८, १२.

भक्ति-विद्या- -द्याम् त्रिवि ८,
 १७.

भक्ति-पर- -राय त्रिवि ४७.

भक्ति-पुरःसर- -रम् प्या ९३, २

भक्ति-भावित- -तः पं २६; सु
 ८४.

a) तीष्ठा १०, १, १० । b) 'भवेत्' इति अश्या. । c) श्रु १०, ९, २ । d) समाहारे द्वस. । e) कर्म-
 अज्ञानवैराग्य इति अश्या. । f) 'वरवतः' इति अश्या. । g) वा. किवि. द. ।

भक्ति-मत्व- मत्वम् त्रिवि ८,
११; -मान् जाद १,२; गी १२,
१७; १९.

भक्ति-मार्ग- गंम् सार २३१:
२२; २३६: १७.

भक्तिमार्ग-रस-संबलित-
-त्तः सार २८१: १५.

भक्तिमार्गीय- -याः सार
२२०: ११.

भक्ति-युक्त, क्त- -क्तः गु ७४;
-क्ता सी ३६.

भक्ति-योग- -नाः त्रिवि ८,
११; सार २८२: १८; -गाव
त्रिवि ८, ११; -गे गोल ६३; -गेन
सु १, १, १६; गी १४, २६.

भक्ति-रति-दावृ- -त्रे सार
२७७: ९.

भक्ति-वर्ति-समन्वित- -ते द
१५.

भक्ति-श्रद्धा(द्वा-अ)भियुक्त-
-क्तस्य सर ३, ८.

भक्ति-समन्वित- -त्तः रुह ११.

भक्ति-सुन्दरी- -री सार २२०: ५

भक्त्य(क्ति-अ)तिशय- -यः त्रिवि
५, १०; -येन त्रिवि ५, १०; ८, १३.

भक्त्य(क्ति-अ)साध्य- -प्यम्
त्रिवि ८, १२^b.

भक्त्यु(क्ति-अ)पहृत- -त्तम् गी
९, २६.

१भग- -गाः वृ ६, ४, ५; त्रि १४.

भग-वत्- -वत्तः छां १, ८, ७;
८; ११, २; ८, ७, १; मैत्रि ६, १३;

कलि १; सी ३४; ३५; गव १,
३५; ३, २८; -वता मे २, ३; मैत्रि
२, ३; शां ३, १; -यति छां ४, ४,
३; -यते वृ ४, १, ४-१६; ३३;
४, ७; २३; ६, २, ४; ६ १; ११;
त्रिवि ७, ३३; ३४; ३५; ३६;

४१; ४६; ४८; रार २, ६२;
६४; ६६; ६९; ७३; ७५; ७८;
९०; रापू ४, ४७; राव ४, ४४;

अग्नि १^१; त्रिता ३, ३०; ४, २३;
ह ७; ८; दत्ता २; गह ३; ६; १०;

चा ९; १९; नारू ३, ८; १२; नाव
२, ६; लं २३३: ५-१०; २१४:

३; २१; २१५: २०; २१६: ९;
वपं ३१२: १२; व ४३४: १३;

१८; ४३८: ९; ११; २०; २१;
४३९: ७; ८; १७; १८; ४४०:

४; ५; १४; १५; ४४१: २; ३;
११; १३; २२; ४४२: १; १०;

१२; २१; २२; ४४३: ८; ९; १८;
१९; ४४४: १; २; ११; १२; २१;

२२; ४४५: ९; १०; १९; २०;
४४६: ८; ९; १८; १९; ४४७:

६; ७; १७; १८; ४४८: ५; ६; १५;
१७; ४४९: ३; ४; १४; १५; २१;

२२; ४५०: ५; ६; १२; १३; १९;
२०; ४५१: ४; ६; १२; १३; १९;

२०; ४५२: ३; ५; १२; १३; १९;
२०; ४५३: ३; ४; ८; १०; १५;

१६; २१; २२; ४५४: ३; ५;
११; १३; १८; १९; ४५५: २;

३; ९; १०; ४५७: १; ४५८:
२; ४; ४५९: ८; १०; ४६५: ५;

-वद्भयः छां ५, ११, ५; -वन्त प्र
१, ३; २-६, १; छां ५, १, ७; १२;

३, ६; वृ ३, ७, १; ४, २, १; ४;
मे १, १; २; ७; २, ३; ४; ५; ३, १;

मैत्रि १, २-४; २, ३; ४; ५; ३, १;
४, १; ५; ७, १०; मैत्रि १, १; २;

२^१२, १; कै १, १; जा ४^१; ५; हं
१; भाव १; अ १; वृजा ७, १; ७;

८; ८, १; वृ ४, १, ४; वृ ९, १;
१५; १९; काला ३; सुवा ९-११;

१५; शु १, १; नाप १, २; ३, १;

५, १^१; ६, १; त्रिना १, १; मं १,
१, १; २, १, १; श १; त्रिवि १,
१; ४; २, १; ११; ३, १; ४, २; ५;

१; ३; ८, १; ३; ७; १७; राव ४,
१; वा १; शां २, १; ३, १; पप

४^१७: २; ४^१९: २०; ४^२०:
४; अक्ष १^१; अव्य ३; अक्षि १;

१अव १; कह १; रुजा ३, १; भ
१, १; जाद १, ३; ता १, १; या

१, १^१; २, १; वरा २, १; ह १;
दत्ता १, १; कलि १; ३; जावा १;

७; सी १, १^१; सर १, १; २प्र
३४: १४; ३६: १४; ऊ ६३:

२; नार १; सार २३०: १४;
-वि १; ४; शि १, ३; य ३७८:

२; सि १, १; हे १; व ४५८: १३;
तारा ८४: ८; पित्र १, ६; २, १;

३, १; ४, १; ५, १; ८; ६, ३; कथु
२, २; गी १०, १४; १७; -वन्त:

छां ५, ११, ५; ६, १, ७; मना २,
७९^१; अक्ष ६; ८; १२; -वन्त:

छां ५, ११, २; ४; ५; वृ ३, १, २;
८, १; १२; ९, २, ७; छाप २३: ३;

पित्र १, २; ५; -वन्तम् प्र १, १;
छां १, ११, १, २; ४, ४, ३; कै १;

१; मै ३, २; मैत्रि ३, २; पर्व १;
वृजा ४, १०; ७, ८; काला ३; ते

५, १; नाप २; ८, १; त्रिवि १, १;
२, १; ५, १; १२; ८, १; शां २,

१; वृअ २; १अव १; कह १; त्रिता
१, ४, १; २, ३, ५; ३, १; ४, १; १३;

५, १; म १, १; रुजा २, १; ३, १;
वरा ४, १; ५, १; म १; छा ३०;

जावा १; सी १, १; सर १, १;
२प्र ३६: ८; सूता १, १; ६; १९;

२२; २, १, ऊ ६३: १; गोच ५: १;
नापू १, १; तारा ८४: ७; पित्र १, ३;

कथु २, ३; -वन्तौ छां १, ८, २;

a) इदिमं इति निता., सख्या. संटि. । b) °क्षया भसा° इति निता. । c) =भाप. । वेप१ यद. ।

d) 'असन्' इति निता. । e) तैसा १०, १३, १ ।

-वाद् छाँ१, ११, ३; ४; ६; ८; १२,
 २; ४, ५, २; ६-८, ३; ९, २; १४,
 ३; ५, २, ४; ६, १, ७, ५, ४; ६, ५,
 ८, ७; ९, ४; १०-१५, ३; ७, १, ३;
 ५; २-३, २; ४-५, ३; ६-१४, २;
 २६, २; वृ २, ४, ३; १३; ४, ३,
 १; ५, ४; १४; श्रे ३, ११; ५, ४; गौ
 छ, ८२; ८४; मै १, १; २, १; ३;
 मैत्रि १, २; २, १; ३; ६, ३०; मैत्रे
 १, १; १, ४, १; २, १; अशि २,
 १-२६; ३, १३; ४, २२; ५, २४;
 ६, १२; ७, ७; वृजा ३, ३; ४, ४;
 पठं १; ऋवि ५; १०२; नाप ९,
 २०; द २०; श ६; १५; १९;
 २०; वृपू ४, १५, १-३२; वृज ७,
 १; काला ५; २१; मन्त्रि ७; १२;
 १२; ते ५, १; त्रिवि ८, २; ४;
 १४; राउ ३, २; ४, १; ५, १; वा
 १; २; ४२; साँ ३, १; महा २,
 १८; ५, १५८; १५९; ६, ८३;
 वृज २; पप ४१८ : १; अक्ष
 १६; अव्य ३; अक्ष ३, ८; अक्षि
 १; पत्र ३; त्रिता १, १; १३;
 २५; ४६; ७५; २, ३; ३७; ७१;
 ३, १; ४, १५; ३७; ५, २; म १,
 २; ११; रुजा १, १; जाद १, १;
 ४, ३७; ३९; १०, १३; ता १, २;
 ३, १-८; मवा १; पं १; क २;
 ८; या २, ४; त्रि १४; वरा १,
 १; २, १; दत्ता ३; गह २५; सौ
 १, १; द १९; १८; च २१; १४;
 चा १२; छाग २५ : १७; प्र
 ३१ : ८; सौ ५४ : २; सुता १,
 ४; ६; २, ३; ४; ५, १४; ऊ ६४ :
 १४; गोच ६५ : २; तुल ७१ :
 २१; नापू १, २; २, १; ४; १६;
 १८; ३, १; १९; ४, १; १५;
 ३१; ५-६, १; नाउ १-२, १; ३,
 १; १६; वृप ८५ : १; पा २, ९;

सं १०; १३; १५; सार २३२ :
 ४; २७३ : २१; वि १; मृ १२;
 लि ३०९; १; वटु ३१३; ३-१०;
 ३१४ : १-२३; ३१५ : १४;
 १५; ३१६ : १५; १७; १८;
 १९; ३१७ : १९; स ३७८ : २;
 सिसि ३८३ : १२; आध ३९९ :
 १९; कलि ४०२ : २३; कामे
 १२; गार ४०८ : २०; हंपो २२;
 तारा ८४ : ११; अद्वैभा २०; भव
 २, ४२; ५१; ५५; ६१; ५, १५;
 पित्र १, ५; चू ७; १२.
 भगवती--०ति अक्ष
 १, ६; ८; दे १०; अक्ष १५;
 वपं ३११; ५; ३१२ : १७; व ४२८ :
 ७; ४२९ : १४; ४३२ : ३; ४३४ :
 १२; ४३५ : ३; ४३६ : १५;
 १७; ४४९ : ७; १५; २२; ४५० :
 ६; १३; २०; ४५१; ६; १३; २०;
 ४५२ : ५; १३; २१; ४५३ : ४;
 १०; १६; २३; ४५४ : ५; १३;
 १९; ४५५ : ३; ११; १५; ४६२ :
 ६; २०; हंपो १३; -ती राउ २,
 ९५; व ९; त्रिता १, २-४; ४,
 १४; ३६; ता २, ४; ३, ७; सार
 १, ३; यु ४७; ६१; आध ३९३ :
 १-६; ७; ८-१०; ३९४ : १-६;
 ७; ८-२३; ३९५ : १-५; ६;
 ७-१२; १३; १४-१९; २१-२३;
 ३९६ : १-७; ९-१०; ११;
 १२-१९; २०; २१; ३३;
 ३९७ : १-१४; १५; १६-२१;
 २२; २३; ३९८ : १; ३; ४, ५;
 ७-९; ११-२३; ३९९ : २; ३-७;
 ९; १०; ११-१३; १६; व
 ४२७ : ८; व ६, १; -तीम त्रिता
 १, ८०; २, ७२; आध ३९९ :
 १८; -त्ये व ४५५ : १५; २२.
 भागवत-वानाम् सार

२८६ : ८; -तैः सु १, १, २.
 भगवत्-छन्द-कदः भवद्,
 ५०.
 भगवच्छन्द-वाच्य-
 -र्यानि भव २, ५३.
 भगवत्-ज्ञान-नम् सुद् २.
 भगवत्-कथा-श्रवण-
 ध्याना(ग-आ)दि-दौ त्रिवि
 ५, ८.
 भगवत्-व-स्वम् राउ ५,
 ११.
 भगवत्-प्राप्ति-सिः भव १,
 ३१.
 भगवत्-प्रीत्य(ति-अ)र्थ-
 -र्थम् सी ३६.
 भगवत्-संकरा(व्य-आ)-
 जुगुप्-येन सी १६.
 भगवत्-सत्ता-मात्रा-
 (त्र-अ)म्त-लक्ष्य-रूप-
 -पम् मं २, ४, ४.
 भगवत्-सह-चारि(व>)-
 णी-णी सी ३४.
 भगवद्-अनन्त-विभूति-
 विधि-निषेध-परिपालक-
 -कम् त्रिवि ६, २०.
 भगवद्-अर्थ-र्थं सार
 २९२ : ४.
 भगवद्-उपासक-कानाम्
 सी ३६.
 भगवद्-दश-शेष्यः छा
 ४, ९, ३; ७, १, ३.
 भगवद्-ध्यान-पूर्वक-
 -कम् त्रिवि ५, १२; १३; ६,
 २१.
 भगवद्-भक्त-कम् नाप १.
 भगवद्-भक्ति-विशेष-वैः
 नाप १.
 भगवद्-वटुके(क-ई)भर-
 -रम् वटु ३१८ : ८.

a) गपू. (वृ ३०) अक्ष-पूर्णा>र्णा->र्णा इत्यत्र सत्य. -०णं इत्याकारकः शोधः द.। b) वा. क्रिवि. द.।

भगवद्-विग्रहा(ह-अ)र्चा-
पूजो(जा-उ)पकरण- नैः
सौ ३६.

°भग-वस्-°-०वः^० सु १, १, ३;
तै ३, १-५, १; छां ४, १, ८; २, २;
४; ५, १; ६-८, २; ९, १; १४, २;
५, ३, १; २; ३; १२-१७, १; ६,
१, ३; १२, १; ७, १, १; २; ३;
५; २-३, २; ४-५, ३; ६-१४,
२; १६, १; १७-२४, १; ८, ७,
४; ८, १; ३; ९, २; १०, ३;
११, २; वृ ६, १, १३; मैत्रि २, १;
वृष ३, १; ४, १; ५, १; ११; वृउ
९, १, १; पं १; वरा २, ३, ४; ता
३, १; का १; नी २, ५; पित्र
६, १.

भगोस्-°- नोः^१ वृ २, ४,
२; ४, ५, ३.

भग-वित्त-^१

भागवित्ति-^१-त्तिः वृ ६, ३,
१०; -त्तये वृ ६, ३, ९.

२भग^{१५}-°-ग तै १, ४, ३; -गः
वृजा ३, ४; -गम् दे २; १;
-गस्य छां ५, २, ७.

भग-द्वैध-त- -तम् गार ४०७; ६.

भग-माला-

भगमालि(त>)नी- नी
आय ३९९; ७.

भगे(ग-ई)श- -शम् श्वे ६, ६.

भगेसी- -सीम् यु ६६.

३भग^{१६}- -गात् १योत १३२; -ने
१योत १३२; २योत १, ३; -गेन
इ १६; २, २.

भगं-द्व^{१६}- -रम् जाद ६, ४५.
भग-मण्डला(ल-आ)कार- -रम्
सौ ३, १.^०

भगा(ग-आ)कृति- -त्रि योरा ५.
भगा(ग-अ)ङ्क-कुण्ड- -ण्डम्
त्रिता ३, २, ३.

भगो(ग-उ)दक- -केन कालि
४०२; १३; श्या १५.

भजत्- -जताम् गी १०, १०; -जन्
मना २, ४०.

भजन- -नम् गोषू १४; गोउ २०;
सार २३१; ५; २३३; ५; २३६;
६; १२; १३; २५२; १९; २५४;
८; १४; २५७; २२; -ने सार
२३५; २०; २८०; १; -नेन सार
२३६; १०; २४९; ७; २८५;
१८.

भजन-प्रकार- -रम् सार २३६;
१०.

भजन-प्रेमा(म-आ)नन्द-
सुख-प्राप्ति- -सौ सार २५१;
३.

भजन-भेद- -दाः सार २३५; ८.

भजन-मार्ग- -नीम् सार २३५;
११; -नीं सार २२२; ३.

भजना(न-आ)नन्द- -न्दः सार
२३१; ९; २५२; २३; -न्दम्
सार २५४; १२; -न्दे सार २५२;
१९; २५४; १४; २८०; २.

भजनानन्दो(न्द-उ)पासक-
-कानाम् सार २३१; ५.

भजना(न-अ)र्थ- -र्थम् सार
२५४; १७.

भजनीय- -यम् त्रिता १, २, ३.
भजमान- -नम् सार २२६; १८;
-नाय सार २५२; १६.

भाग- -गः श्वे ५, ९; मना २, ६५;
शि २, ९; भव २, ३६; -गम् शि २,
३; पित्र ३, ७; -गस्य ध्या ४; -नो
योचू १८; योशि ६, ३०; ३२;
३३; ४९; इ १५; २२; -नैः त्रिवा
२, २; महा ५, १६९; -गौ
१संन्या २, ५९; शि २, ९.

भाग-वल्ति- -सिम् शौ ५१;
१०.

भाग-गुण- -णाभ्याम् सांस् ५,
१०७.

भाग-त्रय- -यात् पै १, २२.

भागत्रय-समष्टि-

भागत्रयसमष्टि-तत्स(>)
पै १, २३.

भाग-धेय- -यम् वृ ६, ३, १.

भागधेयिन्- -नी शौ ५१; ८.

भाग-योग- -नाः सांस् ५, ८१.

भाग-लाभ- -भः सांस् ५, ७३.

भागा(ग-अ)ध- -धैम् ध्या ४.

भागिन्- -गिनः ध्या ४; सांस्
५, ७३.

भागिनी- -न्यौ ऐ २, ५.^३

भाग^{१७}-
भाग्य-वत्- -वन्तः सार
२८८; १३; -वात् सू ३१.

भाग्यो(य-उ)दय- -यात्
सार २८८; १२; -येन सार २८७;
१२.

भाजक- -कः शि ६, १९३.

a) =भगवत्- । b) वैतु. पा. (८, ३, १) भगवत्- इत्यस्य वैकल्पिकं सं १ इति । c) °वत् इति निरा. ।
d) मा १६, ९ । e) नैप्र. <°भग-वस्- । f) सं १ [वैतु. पा. (८, ३, १) भगवत्- इत्यस्यैव सं १ इति, पाचा. (गपू)
सं. अर्थे अयम्. इति (तु. पाम. [गपू.])] । g) =नाय. । वैप १ यद्र. । h) ऋ ६, २८, ५ । i) °ङ्कम् इति निरा. यत्नि.
सोषः द्र. (तु. ऋ १०, १२५, २; अस्या.) । j) ऋ ५, ८२, १ । k) नाय. =गुहाङ्क- । l) =रोगविशेष- । m) °पर
इति अस्या. । n) प्रिरावृत्तमङ्गि इति अस्या., °भग° इति अस्या. संटि. । o) मुभ° इति ताप्रि. । p) तिसं ४,
२, ९, ९ । q) तैत्र्याद्या १०, ९७ । r) निरा. 'भोगैः' इति शोषः द्र. (तु. अस्या.) । s) °गदाः इति अस्या. । t) स्वार्थे
पत् प्र. उत्सं. [पा ५, १, ४९ (वैतु. अमा. प्रधा. +ष्यत् इति)] ।

भाजन^० - नम् योरा १०; १३.
 √भञ्ज् > भञ्जि, भञ्जयति प्रिता ३,
 ३; भञ्जय-भञ्जय लो १६; १८;
 व छ २८: ५; छ ३०: ११; छ ३७:
 ५; छ ६५: १.
 भम- भमम् प्रवि १४; अवि १४^०.
 भम-भाण्ड- षडः कृ १७.
 √भण्, वभाण वृजा १, १.
 भणयते ते ५, १४; महा ६, ५०;
 वरा २, ५९.
 भाण^० - भाणम् वृ १, २, ४.
 √भण्ड् (कल्याणे)
 भण्डीर^० -
 भण्डीर-वट^० - टः सार
 २५५: ४.
 √भृत् (वधा)^१
 १ भद्र, द्रा- -द्रः वृत् २, १५; वृत्
 छ, ४; ५, १; २; अव्य २; -द्रम्
 प्र सुं मां ये शो^१ऽः; नना २,
 ३ १^१ऽ^१; अति अ वृजा शो^१ऽः;
 वृत् शो^१ऽः; १, १५; २, ६;
 १५^१ऽ^१; वृत् ५, ३; ६,
 १; शानाव शो^१ऽः; विवि शो^१ऽः;
 ७, ४०; शो^१ऽः; १, ७,
 ४०; अव्य २; पत्र सी रार राप्
 पप अक्ष सू १भा पाशु प्रिता दे
 भग भा मवा गोप् कृ ह दता गृह
 अवि पदं शो^१ऽः; सु १, २, ५^१ऽः;
 वपं ३ १ २: ११; शि ७, ८१; सि
 शो^१ऽः; व छ ५७: १३; विंज
 शो^१ऽः; -द्रा मना २, ४ १^१ऽः; वृजा
 १, १; माप् छ, ९^१ऽः; पा १०, १;
 -द्रा: दे ट; त्रि २; -द्राय राप् छ,

१४; राउ १, २; -द्रायि दे ३;
 -द्रे पा ७, १०.
 भद्र-कर्ण^१ - णो शि ६, १९०.
 भद्र-जाति^१ -
 भद्रजाति-विकट-रुद्र-धीर-
 हनु-मत् - मते तां २ १ ३: १०;
 २ १ ६: ९^१म्.
 भद्र-स्व- -स्वात् वृत् ७, ९^१.
 भद्र-पदा^१ -
 भाद्रपद^१ - -दे राध २ छ: ३.
 भद्र-पद्म-पादा(द-आ)चार्य-
 -र्यः म छट: १३.
 भद्र-रूप-
 भद्ररूपि(व>)णी - णी सी
 १२.
 भद्रा(द-अ)र्थ-दा(त्)श्री-
 -श्रीम् द ५.
 भद्रे(द-ई)धर^१ - -रः गोउ २३.
 २ भद्र^१ - -द्रस् ध्या छ ३; १ योत
 २९; जाद ३, १; वरा ५, १६.
 भद्रा(द-आ)स्त^१ - -नम् अना
 १९; त्रिना २, ४ ५^१ऽः; शो^१ १,
 ३, ८^१ऽः; अव्य ६; जाद ३, ७^१ऽः.
 भद्रासना(न-आ)दि-
 -दीनाम् भव ३, २४.
 ३ भद्र^१ - -द्रः गोउ २१.
 भद्र-कृष्ण-निवापिन् - -सिभिः
 गोउ ३६^०.
 भद्र-वन- -नम् गोउ २१; २ छ.
 भद्र-श्री-लोह-भाण्डीर-महा-
 ताल-खदिर-वकुल-कुमुद-
 काम्य-मधु-वृन्दा-वन- -नानि
 राधा ३, १.

४^१भद्र^१ -
 भद्र-वज्रायत्रीय^१ - -ये कौ
 १, ५९^१.
 ५ भ(द्र>)दा^१ - -द्रा राधा १, २१.
 ६ भ(द्र>)दा^१ - -द्रा गार छ ७७:
 २०.
 भद्र-हाली^१ - -०लि व छ ६६:
 ६; -ली म छट: ८.
 *भद्रार्थ- ? आराविक- टि. द.
 √भम् (भारणे)
 भान्त^१ - -न्तः मै ७, ६.
 भय-, भयानक- √भी द.
 भर-, भरणी-, १-२ भरत्-, १-३ भरत्-,
 भरद्वाज- √भृ द.
 भर्ग-, भर्गस-, भर्जित- √भृत् द.
 *भर्ण- कोपिष्ठ- टि. द.
 भर्त् - √भृ द.
 √भर्त्स्
 भर्त्सन- -नात् सिशि ३८१: १९.
 *भर्ध- २भार- टि. द.
 *भर्व-व(त्)>ला- औपला- टि. द.
 √भक्त्
 भक्ष-
 भक्षा(क्ष-अ)क्ष- -०क्ष-०क्ष क्षां
 छ, १, २.
 भक्षुचि^१ -
 माह्वि^१ -
 माह्वेय^१ - -यः क्षा ५, ११, १;
 -यम् क्षां ५, १४, १.
 *श्भव^१ -
 भो- भो वृजा ६, १; ७, ५; पं १;
 का छ.
 २-३भव- √भृ द.

a) =वाच- । b) 'भेदे' इति अन्वयाः । c) शिबः प्र. उत्सं. (पा ३, १, ६२) । =भाप., न. । d) =वदविशेष- ।
 e) कस. । f) तु. पाषा. √सद्दि (=√भन्द) । g) श्र १, ८९, ८^१ । h) श्र ५, ८२, ५ । i) तैआ १०, २९, १ ।
 j) श्र १०, ७१, २ । k) =तीर्थविशेष- । l) वस. =भद्रजन्मन्- । m) =जातिविक^० इति पा.। यनि. शोषः द. (तु.
 नाप्.) । n) =नक्षत्रविशेष- । o) =मासविशेष- । p) =शिवलिङ्गविशेष- । q) =आसनविशेष- । r) =वृक्षविशेष- ।
 s) =ऋणः नि^० इति अन्व. । t) =नामविशेष- । u) दस. । यद्वा पा.। श्रीश्रीश्रीरा चारोरो पादौ यज्ञायत्रीयं शीर्ष्यम्
 इत्येवं मूलतः संभाव्यमाने पा. पादौ > भद्र^० इति लैवि. वा वावि. वा स्यात् ? । v) =ज्ञापयि^० इति शांशा ३, ५ ।
 w) =गोपीविशेष- । x) =देवीविशेष- । y) पा ६, ४, १५ । z) श्युः इ. =गोत्रवर्तक-श्रुपिदिविशेष- । a') =१भवत्- ।

१ भवत्- -वतः पित्र ६,२; -वता ह्यु
१,३; महा २, ३३; ७२; सु २,
३, ५; २ प्र ३३: २०; -वताम्
रुजा ३, १; -वते पा १, १; ३, ४;
-वन्तः २ प्र ३५: २०; वृष ४, ४४;
गी १, ११; -वन्तम् वृ ६, २,
७; कृ १; पित्र ५, ९; गी ११,
३१; -वान् वृ ५, २, १-३; ६,
२, ३; ४; ७; अशि १, १; ते २,
११; ४२; अव्य ३; सु २, २, ३०;
सुता १, ४; वृ ३, ३५; ४, २३;
गी १, ८; १०, १२; ११, ३१.
भवती -०ति छां ४, ४, १;
-ती वृ ४, ५, ५; दे १०^०; सार
२४३: १८; -तीनाम् सार २३०:
१७; २३२: २३; २४१: १५;
२४२: ११; २४: सार २४१: १८;
२४२: १२; १३; १६.
भवद्-वाच्य- -व्यम् कृ २.
भवा^०-
भवा-द्वन- -ना: सार २३०:
१५; -शानाम् सिशि ३८०: १.
२ भवत्-, भवन- √भू द.

*भवस्^०-
भोस्- भो: के ४, ४; छां ४, ४,
४; १४, ३; ६, ७, २; वृजा १,
१; ७, ६; मैत्रे २, १; नाप १;
२; मं १, १, १; श १; सिवि
७, ४०; सार १, ५; २, ८१; राप्
४, १५; योशि १, १३; अचर:;
अन ४, ७८; सुता १, २; सार
२३०: १७; २४३: १५; १८;
२६०: १२; पित्र २, ५; भो: भो:
पप ४२०: ६; अव्य १; व
४५९: १०; भो: भो: भो: व
४३४: १२; भो: १ वृ ६, २, १.

१-२ भवानी-, भवितव्य-, भविष्य-,
भविष्यत्-, √भव्य, भव्य- √भू द
√भस्^० (वधा.)
वभस^०- -स: छां ४, ३, ७.
भसित^०- -तम् वृजा १, १, १; १; क
९; वा ३६.
भसित-रुद्राक्ष-भूपित- -तान्
भ २, २८.
१ भ(स्त्र)>स्त्रा^०- -स्त्रा योशि १,
१६; यो १, ३४.
२ भ(स्त्री)>स्त्री^०- -स्त्री यो १, २, १;
-स्त्रीम् योशि १, ८८; ११३.
भस्त्र्या(स्त्री-व्याख्या)>ह्य-
-ह्यम् योशि १, १००; यो १, ३९.
भस्मन्^०- -स्म अशि ५, २०; ३;
२१; २२; वृजा १, १; २, १०;
१२; १३; ३, १; २; २४; २६;
३०; ३४; ४, २; ५, १; १७; ६,
१; ३; ५; ७; ८; ७, १; काला
६; ७; म १, ४; ५; ६; जावा
१५; १६; वपं ३११: १; वृ
३१७: ११; १२; क १०; ११;
शि ५, ८; १; १२; २७; ३०;
सिशि ३८१: १६; -स्मन: वृजा
१, १, ६, २; ५; ७; १०; म १, १;
६; १०; -स्मना वृजा २, ११;
४, ८; ५, ७; ६, ४; ७; काला १७;
म १, १; २, २; ३; जावा २६; वृ
३१७: १३; शि ५, २३; ७, ४३;
-स्मनि छां ५, २४, १; वृजा ३,
२८; ५, १२; नाप ३, ७; इ१४:
२१; वपं ३१३: ५; सिशि ३८३: ८.
भस्म-कल्प^०- -कल्पम् वृजा ३,
३४.
भस्म-कुण्डन- -ने सिशि ३८०:
१३.

भस्म-च्छन्न- -च्छ: वृजा ७, ७.
भस्म-ज्योतिस्- -ति: वृजा ७,
१-३; ७; ८; रुजा ३, १.
भस्म-तत्व-विद्- -विद: वृजा
४, २७.
भस्म-त्रि-पुण्ड्र-धारण- -णे
वाज २.
भस्म-दर्शन- -नात् वृजा ५,
११.
भस्म-दिग्ध- -ग्ध: वृजा ३, २४.
भस्मदिग्धा(ग्ध-ग्र)ह- -ह:
भ २, २०; ह्रा: भ २, २७.
भस्म-दीश-त्रिपुण्ड्रक- -क:
वृजा ५, १९.
भस्म-धारण- -णम् वृजा ५,
९; म १, ८; ९; वपं ३११: १;
३१३: ३; -णात् वृजा ७, २;
३; -णे वृजा ५, १४.
भस्मधारण-संपन्न- -न्न:
वृजा ६, ११.
भस्म-धारिन्- -रिणम् वृजा
५, १३.
भस्म-नि(छा)>छ- -छ: वृजा ५,
१८; १९; -हस्य वृजा ५, १८.
भस्म-प्रहरण- -ण: वृ ४३४: ४.
भस्म-मुष्टि- -ष्टिम् वृजा ४, १;
कृ १; कथु २, ३.
भस्म-रहित- -तम् वृजा ५, १६
भस्म-रुद्राक्ष-गण-दर्शन^०-
-र्नेम् सु १, १, ३७.
भस्म-व्या(वि-श्रा)-पाण्डु-
रा(र-अ)ह- -ह: द ८.
भस्म-दाव्या-शयान- -न: वृजा
७, ७.
भस्म-दायिन्- -यिन: शि ५,
१९; -यी वृजा ५, १९.

a) सना. 1. यु. ! < √मा इति पाठ. (१, ६३), < √भू इति MW. 1 b) 'भवति' इति श्रव्या. 1
c) पा ६, ३, ११ d) 1 भवत्- 1 e) पा ८, २, ८३ f) 1 भवणशील- (सु. शं. प्रवृ.) कः प्र. लिङ्गवत् च उभे. (पा ३,
२, १७१) g) 1 भस्मन्- 1 h) 1 धमिन्- 1 i) 1 वृषभकप्रणायामभेद- 1 j) श्री. वीपू (पा ४, १, ६३) 1 नैप्र. इति
ग्र. गार्. उजायी- 1 k) वैश्व. वद. 1 l) 'जपे' इति श्रव्या. 1 m) तत्तदुपनिषदां द्वय. > मत्तो. वग. 1

भस्म-संयुत- -तः वृजा ५, १७;
-तम् वृजा ४, १८.

भस्म-सद्-भाव- -वम् वृजा
२, ११.

भस्म-संदिग्ध-सर्वा(र्व-थ)ङ्ग-
-ङ्गः वृजा ५, १९.

भस्म-सात्व

भस्मसात्व/कृ, भस्मसात्व-
कुरुते गी ४, ३७.

भस्मसात्व-कृत- -तम्
वृजा २, १०.

भस्मसात्व-सं/कृ, भस्म-
सात्वसंक्रोति श ८.

भस्म-सामर्प्य- -र्प्यम् वृजा
६, ७.

भस्म-स्थान- -नम् वृजा ४, ७;
नाप ७; शि ५, १३; १७; २३;
-नेन वृजा ७, ४.

भस्मस्थान-फल- -लम् शि
५, २१; २२.

भस्मस्थान-वत- -तम् शि ५,
२८.

भस्मस्थान-विधि- -धिम्
वृजा २, १; ४, १.

भस्मस्थान-विशुद्धा(डि-आ)-
रमन्- -मा वृजा ५, १८.

भस्मा(स्म-अ)ग्नि-संगम-
-मात् वृजा ५, १८.

भस्मा(स्म-अ)ङ्ग-राग- नाय
त्रिता ३, ३०; व ४३०: १०.

भस्मा(स्म-या)धिक्य- -क्यम्
वृजा ३, २२.

भस्मा(स्म-अ)न्त- -न्तम् ई
१७; वृ ५, १५, १९.

भस्मा(स्म-अ)न्तिक- -कम् शि
५, २७.

भस्मा(स्म-अ)युध- -धाय व

४३४: ६; ४५९: १२.

भस्मा(स्म-आ)स्युत- -स्ये शि ५,
१८.

भस्मी/कृ, भस्मीकुरु-भस्मी-
कुरु ग ६; व ४५८: २.

भस्मीचकार श १३७.

भस्मी-कृत्य तु ४ १५.

भस्मो(स्म-उ)द्बलन- -नम् नाप
७; -नात् सिशि ३८१: १५.

भस्मोद्बलन-पर- -रः नाप
५, १; १संघा २, १३.

भस्मो(स्म-उ)द्बलित-विग्रह-
-हम् भ १, १; -हाः वृजा ६, ६.

भस्मो(स्म-उ)द्बलित-सर्वा-
(र्व-थ)ङ्ग- -ङ्गम् १योत ९३;

राट २, ३२; श्यां ३, २.

√भा, भाषि क २, ३, १५; १५; सुं २,
२, १०; ३, २, १; छां ३, १८,

३, ६; ४, १४, २; १५, ४;
वृ १, ३, १६; श्रे ६, १४; मैत्रि
६, १६; मैत्रे २, १८; मना २,

१३, २९; वृजा ८, ६; वृ ५, २०;
आबो १२; ३१; नाप ९, २०; श
२७; रक २; त्रिवि ५, ४; रापृ ४,

६; महा ४, ४२; ५, ८२; शोशि ४,
२; १९; २०; अज १, १३; ४,
२६; ५, ७८; अथा ३१; गाशु
२, ४१; ४५; क ७; १७; ३०;

३६; वृह ३४; जाद ५, १४; १०,
९; वरा २, ७२; ३, १७; सर ३,
१३; २३; गु ४५; पित्र २, ६;

४, ७; ८; भाषितराम् सार
२४४: १८; भातः सार २४४:

१६; भाषित क २, ३, १५; सुं २,
२, १०; श्रे ६, १४; वृजा ८, ६;

वृ ५, २०; गु ४५; व ५, २८;
पित्र २, ६; भासि छां ४, १, ३;

ए ४; भासि ते ३, २२; ६, ६१;
भातु ते ६, ९३; भायात् पित्र
२, ६.

भास्यामि वृ १, ५, २२.

भभाषि ते ३, १०, ६.

३भ-

भ-र-य-

भरग-स्व- -स्वात् मैत्रि ६, ७.
भा- भाभिः मै ५, ७; मैत्रि ६, ७;

मैत्रे ३, ५.

भा-रूप- -पः छां ३, १४, २;
मैत्रि २, ६; ६, २५; ऋषि १०२;

आपे ९: १३; -पम् मै ५, ४;
मैत्रि ६, ४; २५; ७, ५.

भात्- मान्तम् क २, २, १५; सुं २,
२, १०; श्रे ६, १४.

भान्ती- -न्तीम् गु ४५.

भात- -तम् पाशु २, ४२; वरा २,
१०; सर ३, १९; -ने सर ३, २१.

भान- -नम् ते ५, ९१; अज ४,
२६; १आ ५; क ७; वरा २,
७२; -नेन-पाशु २, ४२; -नात्
१आ १५.

भान-तस(>) पित्र २, ६.

भान(न-अ)भान-विहीना-
(न-आ)भान्- -न्मा ते ४, ७५.

भानु- -न्वे सू १९; -नुः मैत्रि ६,
३५७; प्या २६; आबो १८; २५;
य २, १९; सूता १, ३५; ६, ९;

पित्र २, ६; -नुम् महा ४, ८०;
वरा २, ८; व ४६२: ३; -नुना
१आ ८; -नो अज ५, ९४.

भानवीय- -न्याः मैत्रि ६, ३१.

भानु-कोटि-प्रतीकात्- -राः
हं ७.

भानु-कोटि-सम-प्र(भा >)-
भ- -भम् पं ६.

a) मा ४०, १५ । b) °स्मीकृत्य इति श्रव्या । c) तैश्चा १०, ११, २ । तु. गपू. पृ ३३७m । d) नामरू° इति निशा. सुपा. वनि. सु-शोषः (तु. मैत्रि ६, ५) । e) 'भानम्' इति श्रव्या । f) 'भासिन' इति निशा., अज्या. संदि. । g) वैप१ यद्र. । h) वैतु. रावी. °पुरणं° इत्येकं परमिति ।

भातु-मण्डल-संका(श)>ता-
-ना नाद ७.

भातु-मध्य-गत-तः ध्या २६.

भातु-लक्ष-क्षम् रा २, ६.

भातु-वत् नाप ८, २०.

१भाम^१-

भाम-नी-नीः छां ४, १५, ४.

भा-√भा द्र.

भाक्त-१भक्ति-द्र.

भाग-, भागवत-, भागवत्ति-,

भागिन्-, भाग्य-, भाजक-,

भाजन-√भज् द्र.

भाण्-√भण् द्र.

भाण्ड^२-ण्डम् शि ६, २६०.

भाण्ड-संयुट-टाव् शि ६, ५६.

भाण्डीर^३-रः गोट २१.

भाण्डीर-वन-नम् गोट २१; सार

२२१: १२.

भात्-, भात-√भा द्र.

भाद्रपद्-√भद्र द्र.

*भाद्रार्थिक-?भारत्रिक-टि. द्र.

भान-, भानवीय-, भातु-√भा द्र.

√भाम्

२भाम^१-मः व ४६०: ५९०.

भामित-^४तः धे ४, २२१; मना

२, ५३; रशिसं २९.

भार-√भृ द्र.

भारक^५-

भारक-व-स्वाव मै ५, ७.

१भारत-

भारता^६-ताः अह १५९^६.

२भारत-

भारती^७-

भारती-जि(ह्वा)>ह्-ह्रम् वउ

४, ३४.

३-४भारत-√भृ द्र.

भारद्वाज-√भृ द्र.

भार्गव-भृगु-द्र.

भार्य-, भार्या-√भृ द्र.

भाल^१-लम् वृजा ५, १६^{११}.

भालु(कि^{१०}>)की-

भालुकी-पुत्र^{११}-त्रः, -त्रात् वृद्, ५, २

भालुचि-, भालुवेय-भल्वि-द्र.

१-२भाव-, भावन-, भावना-, भाव-

यत्-, भावयितव्य-, भाव-

यित्री-, भावयित्वा, भावित-,

भावित्-, भाव्य, भाव्य-, भाव्य-

मान-√भृ द्र.

√भाप्, भापते नाप ५, १७; भापसे वृ

२, ४, ४; गी २, ११; अभापत गी

११, १४; अभापयाः छां ५, ३,

६; वृ ६, २, ५.

भाप्यते ते ६, ५२; व १६: १८.

भापा-पा गी २, ५४; -पाः योशि

३, ७.

भापा(पा-आ)दान-विहारिता-

-ताः भव २, १९.

भापा-हीन-नः ते ३, १३.

भापा(पा-आ)भि(ज्ञ)>ज्ञा^{१२}-

-ज्ञा सार २६३: ६.

भापित-तः यो ३, २१; -तम् गी

४, ९९; योशि ४, ८.

भापितुम् कौ २, ५०.

भापितृ-ता वृ ६, ४, १८.

√भास्, >भासि, भासते कौ २,

५१^{१३}; ससा १, १६^{१३}; ३०^{१३}; त्रिमा

२, ९; राप् २, १; योशि ६, ७७^{१३};

१आ ६; पाशु २, २४; यो ३,

१६; पं १७; २६; सर-३, २२;

भासति-भासति मैत्रे २, १४;

भासन्ते पाशु १, २; भाससे पं १८

भास्यते १आ ८.

भासयते गी १५, ६; १२; भास-

यति मै ५, ७; मैत्रि ६, ७; पित्र ६, ४;

भासयन्ति भ २, १९^{१४}; पित्र ६, ४.

भास्-भाः छां १, ६, ५; ६; ७, ४^{१५};

मैत्रे ३, ५; गी ११, १२; भासः

गी ११, १२; ३०; भासा क २, २,

१५; सुं २, १, १०; वृ ४, ३, ९; धे

६, १४; त्रिमा १, २^{१६}; एध; गु ४५.

भासा

भासा-हीन-नः मैत्रे ३, ५.

भास्-कर^{१७}-रः मैत्रि ७, २;

१संन्या २, ६; जाद ४, ३७; सुता

१, १७; २९; -रम् त्रिमा २,

१५७; सूता १, २२; २८; ५, १३;

व ४६२: ३; -राः नाप ५, १०;

महा ४, २०; -राय मना १, ७^{१७};

चा ८; सूता ४, ५; व ४६१: २०;

४६३: ६^{१८}.

भास्कर-वर्ण^{१८}-र्णः इ १०: ४.

भास्करा(र-आ)कार-वेह-

-हौ सावि १०.

भास्-वत्^{१९}-वत्: छां ७, ११, २;

-वता गी १०, ११; -वन्तम् महा

४, ८०; वरा २, १९; -वात् महा

४, ५६.

भास्वती-न्ती मै ५, ५, मैत्रि

६, ५; मना २, १३, २^{१९}; अ १;

a) =दीप्ति- (द्र. २भाम-). b) व्युः? =पात्र-। c) व्युः? =भण्डीर-। d) =कोष-। e) श्र १०, ८३, ४। f) श्र १, ११४, ८। g) °मिनः इति निशा. यनि. शोधः द्र. (तु. श्र १, ११४, ८; आन.)। h) निशा. १. भरण- इति शोधः द्र. (द्र. मैत्रि ६, ७)। i) भा-र(त)>ता- इति वा भा-भार(त)>ता- इति वा कृत्वा उपसः (सं३) इत्यस्य विप. द्र. [वेद. सा. (तैश्वा १, २७, २) <√श्र इति कृत्वा पुं. प्रं. ३ इति (तु. ना. उ. रय. 'स-युज्->युजा' इत्यत्र टि.)], लटी. <भारती- इति कृत्वा पुं. सं३ इति ? (न त्वेवं सत्यायुजायाः [द्र. तैश्वा.] उपपत्तिः)। j) तैश्वा १, २७, २। k) व्युः? =सरस्वती-। l) व्युः? =मस्तक-। m) फा^२ इति अश्या.। n) व्युः? =गोत्रप्रवर्तक-श्रुतिविशेष-। o) 'भातुम्' इति अश्या.। p) निशा. अश्या. 'भापते' इति शोधः द्र. (द्र. आन., शांथा ४, ५)। q) 'भवभासते' इति आन.। r) 'अभभासते' इति अश्या.। s) 'भावयन्ति' इति निशा.। t) 'भासेन' इति अश्या. संटि.। u) तैश्वा १०, १, ७। v) तैश्वा १०, ११, २।

वृ२, २; वृ३ ३, ५; ना३ १,
१९१; कालि ४०३; ५१; -सीम्
सुभा २.
भाः-सत्य- -त्यः वृ ५, ६, १.
भासक- -कम् विद्रा १, २.
भासक-त्य- -स्वात् रि ५, १२.
भासन- -नात् वृजा १, १.
भासमान- -नः क२ २५; -नम् नि
१३; वल् २५; वरा २, १४.
भासयत्- -यत् पै २, ४१.
भासित, ता- -तः ते ५, ६३; -त्म्
योशि १, १२४; -ताः सार२७६:
३१.
भासुर- -०२ अक्ष५; -रम् महा ५,
१५४; योशि ४, २०.
भास्य-
भास्य-विलक्षण- -णः कुं १६.
भास्वर, रा- -रः मैत्रि ७, १; -रम्
मैत्रि ६, १७; -रुं रा मना २, १३,
२; वा २२; कालि ४०३: ४.
भास्वर-वर्ण- -र्णः वृ ६, २, १४.
√भिच्, भिक्षेत्, भिक्षेत् १ संन्या २,
६४.
भिक्षेत् छां १, १०, २; ४, ३, ५.
भिक्षा- -क्षया छां ८, ८, ५; -क्षा नाप
५, १; १ संन्या २, १९; -क्षाम्याम्
१ संन्या २, ७१; -क्षाम् छां ४, ३,
७; नाप ६, ८; १ संन्या २, ६१.
भैक्ष- -क्षम् जा ६; मैत्रे २,
३; १०; नाप ३, १८; ५, ९;
१८; स्क१२; मि १३; १ संन्या
२, ६२; ६५; ६७; ६८; ७१; ७४;
७७; या २, १; प५ ४१९: १४;
गो३ १; शा १९- -क्षेण नाप ५,
३५; १ संन्या २, ६०; ६२.
भैक्ष-चर्य- -र्यम् वाश
४; कशु १, १.

भैक्ष-सुज्- -सुक् नाप
३, १९; २०; २२.
भैक्षा(ज्ञ-आ)चरण-
-णम् मि ४; ११.
भैक्षा(ज्ञ-आ)ज्ञ- -ज्ञः जा
५; १०; प५ ४१९: ७; या २, १; १०.
भैक्षा(ज्ञ-आ)दान- -नम्
नाप ५, ३३.
भैक्ष्य- -क्ष्यम् गी २, ५.
भैक्ष्य-चर्या- -र्याम् सुं
१, २, ११.
भिक्षा-काल- -ले १ संन्या २,
६३.
भिक्षा-चरण- -णम् १ संन्या २,
७३.
भिक्षा-चर्य- -र्यम् वृ ३, ५, १;
४, ४, २२; १ संन्या १, १.
भिक्षा(ज्ञा-अ)दन-समुद्योग-
-गात् १ संन्या २, ६८.
भिक्षा(ज्ञा-आ)दि- -दि कुं १३.
भिक्षा(ज्ञा-आ)धार- -रः
१ संन्या २, ८८.
भिक्षा-यात्र- -त्रे शि ६, २७३.
भिक्षापात्र-मुखा(ख-आ)-
-च्छाद- -दम् शि ६, २७२.
भिक्षापात्र-समाश्रय- -यम्
शि ६, २७०.
भिक्षा-मात्र- -त्रेण नाप ५, १.
भिक्षा(ज्ञा-अ)र्थ- -र्थम् वाश ५;
नाप ३, ५५; ६५; ५, ८; १ संन्या
२, ६९.
भिक्षा-वार्ता- -र्ता नाप ३, ५८;
-र्ताम् १ संन्या २, ८४.
भिक्षा(ज्ञा-आ)गिन्- -शी कुं ९;
क२ १; कशु ३, १.
भिक्षिस्वा कौ २, १, २.
भिक्षु- -क्ष्वे पै ४, ६; -क्षुः पठं ४;

नाप ३, ५६; ६२; ६८; ४, १;
१५; १८; २१; २२; ५, १; ७;
१ संन्या २, ५८; १३; १५; भव २,
२६; -क्षणां मि १; -क्षोः मैत्रे
२, १०.
भिक्षु-क- -कः व्रवि ४९; नाप
६, ३०; प५ ३, ३; -के नाप ५, ३३.
भिक्षु-महच्च-छारीक- -कम् सु
१, १, ३५.
√भिद् > भेदि, भिनत्ति मैत्रि ६, ३८;
सुभा ११; योशि १, ८६; अध्या
५४; यो १, ८५; ८६; वरा ५,
६५; भिन्दन्ति योशि १, ७५;
अक्ष २, ४३; भिन्दि छां ६, १२,
१; भिन्धि-भिन्धि तां २१४:
१७; भिन्धी व ४६४: १८.
अभिदम् वा १०.
भिद्यते सुं २, २, ८; गौ २, ४; ३,
१९; सुभा ९; नाद ६; ध्या १;
व्रवि ७१; १ योत् १९; १३८;
२ योत् २, १; नाप ८, १; महा ४,
८२; योशि ५, ४५; ६, ४०; अक्ष
४, ३१; ५, ७६; १ आ १; २ आ
३; पाशु २, २५; क२ ३८; रूढ
४५; जाद १०, २; सर ३, ३२;
सांस् १, १५१; भिद्येते प्र ५, ५;
भिद्यन्ते गौ ३, ६; योशि १, ११३.
भेदय-भेदय तां २१४: १६;
२१५: ३; २१६: १.
भित्वा मि २, ९; मैत्रि २, ६; अना
३९; अ २; सुभा ११; लु ११;
व्रवि १०; त्रिवि ५, १२; शां १,
७, ९; योशि १, ८७.
भिदा- -दा वृ३ २, ९; ८, ५;
अध्या २२; २४; -दाम् वृ३ ८,
५; भव २, ३३.
भिदा-गन्ध- -न्धम् मं २, ४, ४.

a) तैश्वा १०, ११, २। b) °क्ष्यम् इति अख्या. संदि.। c) °क्षणः इति निसा. यनि. शोधः द्र. (तु. अख्या.;
वैतु. अ्यान. °क्षणः इति)। d) °क्षमाणः इति निसा. यनि. शोधः द्र. (तु. अख्या.)। e) भैक्षच° इति अख्या.।
f) तत्तदुपनिषद्भाषां समाहारे द्वस.। g) °बन्धते इति आच.।

भिद्यमान- नम् ब्रवि १४; त्रिता
५, १४; अवि १४; न्ने गौ ३, १९.
भिन्दन्- न्दन् मैत्रि ६, ३८?;
या १५.
भिन्न, द्वा- न्तः वृ ४, २, ३; ३, २०;
वृ ८, ५; सुवा ४; आबो २८;
गो ६; ७; ८^५; ९; १०^०; १४;
१५; कृ २५; सार २४५; १४;
भव २, ३१; -जम् छां ६, १२, १;
गौ ४, ११; ध्या ४६; आबो २७;
रह २७; पं ३२; पत्र २^०; कृ
२५; अहं २६; शि ७, ८०; ८३;
-अस्य आबो २३; -च्चा छां ६,
१२, १; रह ४४^३; अत्र ४, ३३^०;
गौ ७, ४; -च्चाः शा ११; -जाम्
त्रिता ५, २१; -ञ्जे ब्रवि १५; मन्त्रि
२; महा ४, ५३; योशि ६, ७७;
त्रिता ५, १५; यो ३, १६; पिं ३;
चू २; अवि १५; -ञ्चौ वउ ३, ४५.
भिन्न-आगत- आतः अत्र १,
१५; १६.
भिन्न-ता- -ता योशि १, १७.
भिन्न-त्य- -त्येन भा ३३.
भिन्न-भिन्न- -जम् रुजा १, ११.
भिन्न-रूप- -पौ अत्र १, १३.
भिन्न-वत् त्रिणा १, २.
भिन्ना(अ-आ)अन-सम-अ-
(मा>)अ- -अम् त्रिणा १, ४१.
भिन्ना(अ-अ)भिन्न-रूप(>)पा-
-पा शौ १०.
भेद- -दाः गौ ३, ६; १५; पहं २; ध्या
१; १योत १११; मं २, ३, ३, ३;
२, २; त्रिवि १, ८; १०; २, १०^०;
महा २, ७; योशि ४, १; ५, ५८;
पाणु २, ६; अत्र २; ३९; ४, ३३;

अध्या २५; रह ४२; ४५; रुजा
१, २०; पं ३३; सार ३, २३; अहं
१; स्व ६१; २१; सांका ४८;
-दम् ते ४, ४२; ६, ५५; १००;
अह्नि २०; अध्या ४६; जाद ४,
६३; सार ३, १८; २१; अहं २६;
गौ १७, ७; १८, २९; -दस्य महा
५, ३४; योशि ४, ४; वरा ४, १०;
-दाः मैत्रि ७, ११; स्क १०;
अहं १; पं १; सार २४९; ४;
सांका ४६; -दात् सौ २, ७; सां
५, ६६; वस् ३, २, १२; ३, २;
-दान् गौ २, ११; १२; ध्या ४२;
-दानाम् गौ २, ४, ५; ११; योशि
१, १०२; यो १, ४०; सांका १५;
-दे गौ ४, ९४; पाणु २, २५; सार
३, २१; वस् ३, ३, १२; -देन अह्नि
४३; रुजा २, १; पं ३२; पिं
६, २; वस् १, २, २०; ३, ४२;
-दैः यो १, २१; सार २, ७; -दौ
सार २७५; ८.
भेद-वर्तु- -र्ता अध्या २५.
भेद-कलन- -नम् ते ६, ९९.
भेद-तस(>) ब्रवि ३९; सु १,
१, १३.
भेद-अय- -यम् ते ३, ४७.
भेद-त्य- -त्येन गो ३३.
भेद-दष्टि- -ष्टिः महा ५, ११३.
भेद-भिन्न- -द्वाः गौ ४, ९४.
भेद-निर्वेदा- -श्वात् वस् २, १,
२२.
भेद-निष्पन्द-चित्त-
भेदनिष्पन्दचित्त-ता- -ता
महा ५, ७.
भेद-बन्ध-विनिमुक्त- -क्तः

योशि १, ४१.
भेद-बुद्धि- -द्विम् ते ३, ६३.
भेद-भू- -भूः ते ६, ३३.
भेद-अम- -मः अत्र १, १६.
भेद-वास्तना- -नाम् महा ४,
१०९.
भेद-व्यपदेश- -शात् वस् १,
१, १७; २१; ३, ५.
भेद-श्रुति- -न्तेः वस् २, ४, १८.
भेद-सिद्धि- -द्धौ सांस् २, २४.
भेदा(द-अ)युपपत्ति- -त्तिः वस्
३, ३, ३६.
भेदा(द-अ)भाव- -वात् मं २,
३, ५; ५, १, ६.
भेदा(द-अ)भेद- -दः पाणु २,
२६.
भेदन- -नम् हं १८.
भेदयत्- -यन् ब्रवि ७४.
भिपज्- -पक् मैत्रि ६, १३; -यजा
मना २, ४८^५.
भेपज- -जम् स शां^५; भव १,
३१; -जानि लि ३१० : १^५.
भेपज-कृत- -तः छां ४, १७, ८
भेपज्य-
भेपज्या(ज्य-आ)हारपात्र-
-त्राणि शि ७, २७.
भिपज्-ग्रहण-काल- -ले एव ६१;
१४.
√भी, > भीवि^३, ५^०भयामहे मना १,
१९; व ४६३ : ३२.
विभेति क १, १, १२; तै २, ४,
१; ९, १; वृ १, ४, २; वृ २,
१४; सुवा १^५; १३; श १७^५;
महा ४, ७०; योशि ६, ६७; अत्र
५, २; अह्नि ६; कृ ३४; ग १८;

a) न्दन् इति मुपा. यनि. शोधः द्र. (तु. सात.) । b) जम् इति निसा. । c) आ इति निसा. ।
d) चाभिद्यम् इति निसा. । e) सहृद् अत्र इति अत्र्या. संदि. । f) दकम् इति निसा. संदि. । g) निष्पत्ति इति
अत्र्या. संदि. । h) दान् भे इति अत्र्या. संदि. । i) खे इति निसा. । j) वैपश् यद्र. । k) गौ ७, ५५, १ ।
l) लि १०, १९१, १५ । m) अहं ६, ७४, ३ । n) पा ७, ३, ४० । o) अहं ८, ६१, १३ । p) गद्. (ष्ट ७९) अभि/धा
> अभि-धा-> -धा इत्यत्र यनि. शोधः द्र. (तु. अत्र्या.) । q) तैश्चा ८, ४, १ ।

गोपू २;३; वरा २,२०; पा ३,
१; विभ्यति गौ ३, ३९; वा २१;
विभेमि वृ १,४,२; शौ ५१:६;
५२: १७; ५३:३; अविभेत् वृ
१,४,२; विभीयात्, विभीयुः^६
वृ २, १.
भैपी: सता ३, ८; अभेभ्यत् वृ
१, ४, २.

*विभया-
*विभयां √कृ, विभयांचकार वृ
४,३,३३.

विभ्यत्-भ्यत् वउ ३,२९; भ्यतः
छां १,४,२; शौ ५१: ४; ५२:
- १४; ५३: २.

१भय^७-भय् क १,१,१२; तै २,
७,१^१; छां १,३,१; ८,९-११,१;
वृ १,४,२^१; ४,३, २०; गौ १,
२५; मे ३,५; मैत्रि ३,५; वृउ
६,३; ते १, १२; १४; ५, २०;
२३^१; ६, १२; १योत १३; ९१;
९७; नाप ५, १६; योचू ९१;
महा ४,७९; योशि १, ११; ४,
८; कक २८; इ १०: १४; वपं
३१२:१६; वध२९:१३; ४६२:
१७; ४६५:७; गौ १०,४; १८,
३५; अरुष छां १,३,१; -यात्
क२,३,३^१; नाप७; योशि६,६७;
वक्ष १,३८; पा २,९; व ४३४:
१६; गौ २,३५; ४०; -यानि वृ
४,३,१३; -येन गौ ११,४५.
भयं-कर- -रात् व ४३४: २१.
भय-प्रस्त-सारह-
भयप्रस्तसारह-वत् नाप ६,
२०.
भय-द्विन्द- -सिन्: गौ ३, ३९.

भय-प्रद- -दम् अक्ष ५, ३५.
भय-मन्दिर- -रम् महा ३, ३३.
भय-मोह-शोक-क्रोध-त्याग-
-या: निर्वा २९८: ७; ८.
भय-वर्जित- -त: नाप ५, ३२.
भय-हर- -रम् व ४५६: १८.
भया(य-श्च)ज्ञान- -नाभ्याम् पै
२, ४५.
भया(य-श्च)भय- -ये गौ १८,
३०. -
भया(य-या)वह- -ह: गौ ३, ३५;
-हानि थे २, ८; भव ३, २५.
२भय^८- -य: मैत्रि ७, ११^६.
भयानक- -०क अक्ष ५; -कानि गौ
११, २७.
भी- भियम् ङ^९व ४६१:४; ४६४:
२१; भिया तै १, ११, ३; भी:
वृ १, ५, ३; मैत्रि ६, ३०; भीम्
वा ४^१.
भीत- -त: अव्य २^१; कुं ८; वउ ४,
४, ५^१; -तम् गौ ११, ५०; -ता:
२प्र ३३:१८; गौ ११, २१; -तानि
गौ ११, ३६.
भीत-सीत- -त: गौ ११, २५.
भीति- -ति: ते ६, ७३; महा ३, ३३;
प्रा १, ६; -त्या वृ २, १४.
१भीम, मा^{१०}- -ङ^{१०}म: वृ २, १३;
नापू ४, १०; -मम् वृ २, ८९^१;
-मा व ४४३: २०^{११}१^१; तारा
८३: १९; -माय वृ ४, ३१.
२भीम^{११}-
भीमा(म-श्च)भिरक्षित- -तम्
गौ १, १०.
भीमा(म-श्च)शुंन-सम-
-मा: गौ १, ४.

३भीम^{१२}-
भीम-क^{१२}- -क: व ४४८: १८.
भीम-कर- -०र ला २१४: ६.
भीम-कर्म- -मां गौ १, १५.
भीम-दं(ष्टु>)वृ- -वृ ताता
८३: २०.
१भीम-रूप^{१३}-
भीमरूपिन्- -पिणम् व
४३०: १८.
२भीम-रूप^{१४}- -पम् लां २१४: १
भीमे(म-ई)श्वर^{१५}- -रे शि ६,
१९०.
भीर^{१६}- -रु: थे ४, २१.
भीरव^{१७}- -०व लां २१५: १३;
-व: म २, ३०; सुमु १८; कालि
४०३: १०; व ४६३: १०.
भीरवी- -वी व ४२७:
९; -वीम् तिता १, ८६; म२, ३०.
भीरव-स्वरूप- -०प लां
२१५: १६.
भीपू^{१८}- भीपां तै २, ८, १; वृ २,
१४^{११}१^१; अव्य २; म२, १०^{११}१^१.
भीपण^{१९}- -०ण अक्ष ५; -ण: वृउ
४, ४; ५, १-२; -णम् वृ २, ६;
१४^{११}१^१; वृउ ५, १६, १; त्रिवि
७, ४०; अव्य २^{११}१^१; वपं ३१२:
११; व ४५७: १३.
भीषण-स्व- -स्वात् वृउ ७, ९^१.
भीष्म^{२०}- -ष्म: गौ १, ८; ११, २६;
-ष्मम् गौ १, ११; २, ४; ११, २४.
भीष्म-द्रोण-प्र-मुख-
भीष्मद्रोणप्रमुख-तम्(>)
गौ १, २५.
भीष्मा(म-श्च)भिरक्षित- -तम्
गौ १, १०.

न) भि^१ इति श्रम्या. संदि. । b) भावे कृत् । c) अयादने कृत् (तु. राती) । d) पा। भ^१ इति श्रोषः
द्र. (तु. गात.) । e) श्र १०, ८४, ७ । f) तु. गृ. वृ ५, २९, j) । g) विप. । h) श्र १, १५, २ । i) श्र २,
३१, ११ । j) =अमिततुविशेष- । k) =यावत्तुविशेष- । l) =राक्षसविशेष- । m) कय. । n) दव. ।
o) =तीर्थविशेष- । p) वैप१ यद. । q) =शिवपर्यायविशेष- । r) तैश्चा ८, ८, १^१ । s) *प: इति श्रम्या. । t) =श्रीरव-
विशेष- । ष्यन्तात् मह प्र. [वैतु. पाठ. (१, १४८) √भी+मङ् प्र. युगागमथ] ।

भेतन्व- न्यम् वृज ९, १९; इ १०:२.

भुकरिकवासम्- -सः वज ६, ३५.

√भुज्(वधा.)>भोजि, वुभुज्, मुह्के कौ ४, २०^१; मैत्रि ६, १०^१; काला २०; मन्त्रि ७; तै ६, ९५^b; रा २४; शां २, १; पै २, ३८; महा २, ५४; योशि ५, २३; सुनक्ति वृ १, ४, १०; १५; शा ३, ५^१; पा ४, २; युपो ४२१: ६; वज ६, ४९; सुहते कौ ४, २०^१; योचू ४३; इ १३: १; सार २२६: ३; २७३: ४; गी ३, १३; भुजं ते ३, २३^०; सुनक्तु क शां^१; तै शां^१; श्वे कै गर्भे ना मना व्र अना काला लु ससा शु ते ध्या द्रवि १योत द रक शारी योशि ए अक्षि १भव कर रूढ शो पं प्रा वरा कलि शां^१; १म शां^१; व ४६६: १७^१; भुह्क्ष्व ते ४, ८०; गी ११, ३३; अमुनजत् वृ १, ५, १७; सुजीत १संन्या २, ७१; वृजा ३, २१; इ १४: ११; १५: १३; १७: १६; १८: १; शि ७, २४; ४८; मुञ्जीयात् इ १३: १५; मुञ्ज्यात् नाप ५, १^३; मुञ्ज्युः वृ १, ४, १०; मुञ्जीयाः ई १; मुञ्जीय गी २, ५. वुभुजे सार २३८: १७; २४०: १५; भोक्ष्यसे गी २, ३७. मुज्यते ते ६, ५३; यो १, ४. भोजयति शि ६, २१५; भोज-येत् वृजा ३, २१; रार ४, ८;

भ १, ४; इ १७: १५; शि ७, ३२; ७७; काम १९.

वुभुक्षा- -क्षा पित्र १, १२; -क्षाः? भव १, १४.

भुक्त- -क्तः महा ३, १९^b; -क्तम् मना १, १२^१; सुवा ४; महा ३, १७; योशि ५, ३५; अष ५, ३;

-क्ताः गर्भे ४; निरु १, १७. मुक्त-पात्र- -त्रम् या २, १^१.

१^१भुक्त-भो(ग>)गा- -गाम् धे ४, ५; मना २, १२, १; नापू ५, २१.

भुक्त-वि-रस- -सम् महा ६, ७६^१.

भुक्ता(क्त-अ)व-रसा(स-अ)-दिक्- -कम् शां १, ४.

भुक्तवत्- भुक्तवज्-जन- -ने नाप ५, ८; १संन्या २, ७३.

भुक्ति- -क्तिः सौ १, ३; सांख ६, ५५; -क्तिम् वपू १, ४; वज ६, ४९.

भुक्ति-मुक्ति- -क्ती सर ३, ७. भुक्तिमुक्ति-प्रद- -द अत्र ५; -दम् रार ५, १५.

भुक्तिमुक्तिप्रदायि(व>)- नी- -नीम् दे १०.

भुक्तिमुक्ति-फल-प्रद- -दः रार ५, १२; -दम् हं ३; गोच ६८: २४.

भुक्तिमुक्ति-फल(ल>)ला- -ले का १३.

मुक्ति-सिद्धि- -द्धिः आथ ३९३: ८; ३९८: १७.

मुक्तय(क्ति-अ)न्त- -न्तम् नाप ४, ३८^m.

मुक्त्वा वृजा ४, ६; नाप ३, ३८; रापू ५, १०; महा ४, ३३; योशि १, ४९; यो १, ७३; म २, २१; गोच ३; इ १२: १९; शि १, ३०.

भुज^{१०}- -जः सु २९३: १३; -जम् वि २१; -जयोः य ९; सु २९३: १; -जे सु २९४: १३.

भुज-य^१- भुजग-विल-समावद्- -कक्ष्य- -क्ष्यः द ५.

भुज-वण्ड- -ण्डेन ध्या ५९; योचू २७; योशि ६, ५२.

भुज-द्वय- -यम् व ४५८: ५; -ये वृजा ५, २.

भुज-लता-कर-कक्षण-मर-कत- -ज्योत्सना- -स्तनाभिः सार २६५: १०.

भुज-स्पन्द- -न्दम् व ४३२: १७. भुजा(ज-अ)न्तर- -रे गर ५.

भुज्यु^{१०}- -ज्युः वृ ३, ३, १; २. भुञ्ज^१-

√भुञ्ज् भुञ्जमान- -नः सार २६९: २०.

भुञ्जत्- -ञ्जन् नाद २१; १योत २३; सिधि ३८१: १२.

भुञ्जान, ना- -नः गी १, ५; शि ७, १९; -नम् गी १५, १०; -नाः सार २४०: ५; २९१: २१; -नात् सार २४६: २०.

भोक्तव्य- -व्यम् ते ४, २१; १संन्या २, ६८; ६९; वरा ५, ९.

भोक्तुम् नाप ३, १८; भव १, १३; गी २, ५.

भोक्- -क्ता क १, ३, ४; श्वे १, १२;

a) पा. १ भुकरक्त्वा इति शोषः द्र. । b) 'ज्ञते' इति अख्या. संटि. । c) वाच २, ११ । d) 'न्ते इति निसा. यनि. शोषः द्र. । 'मुञ्जति' इति आन., अख्या., शांशा ६, २० । e) 'मुह्के' इति अख्या. । f) तैशा ८, १, १ । g) वृ. गप. पृ ४५९ । h) 'मुक्तः' इत्यपि निसा. पाभे. । i) तैशा १०, १, १२ । j) 'शिक्ष्यं, पात्रम्' इति अख्या. । k) तैशा १०, १०, १ । l) 'नक्ति' इत्यपि निसा. पाभे. । m) सु^० इत्यपि निसा. पाभे. । n) पा. अर्थः? =बाहु- । o) पा. अर्थः? =अपि विशेष- । p) शः प्र. उसं. [पा ३, १, १३७ (वृ. गप. पृ २७७r)] ।

गौ १, ५; २, २२; मैत्रि ६, १०^५;
१६; कै १, १८; ससा ३; ते ६,
१५; ध्या ९, ३, १; नाप ९, ११;
पै ४, ३; शारी ३; अक्षि २१;
वज्र १, ५७; गोड ६-११;
१३^३; वरा ३, १९; इ १४:८;
भव २, ११; ५७; गौ ९, २४;
१३, २२; -कारम् गौ ५, २९;
-कृ: सांस् ५, ११४; -क्रे पाठ, २.
भोका।[कृ]०(कृ-आ)दि-
शब्द-

भोकादिशब्दित^१- -व: भव
२, ३१.

भोकृ-ख- -वत् मैत्रि ६, १०;
-खे भव २, ८; गौ १३, २०.

भोकृ-भाव- -वत् खे १, ८; नाप
९, ७; भव २, ५; सांस् १, १४३;
सांसा १७.

भोकृ-भोगा(ग-आ)यत्न-

भोकृभोगायत्न-ख-

-खम् सांस् ५, १२२.

भोकृ-भोगा(ग-आ)र्थ- -तु-

(क>)का- -कार खे १, ९; नाप
९, ८; भव २, ३.

भोकृ-भोरया(ज्य-आ)दि-

रूपक- -कम् ते ५, ७९.

भोकृ-विद्- -विद्: गौ २, २२.

भोकृ(कृ-अ)भोकृ- -कारो गोड
१३^३.

भोकृ(कृ-आ)पत्ति- -सो: मस्
२, १, १३.

भोक्ष्^२-

√भोक्ष्, भोक्ष्ये ते ४, ३१.

१भोग- -ग: वृ १, ३, २-६; कै १,
१८; ते ४, २१; महा ५, ७१;
अक्ष २, ४२; ४, ३३^१; शि १,
३३; पित २, २; सांस् १, १०४;

-गम् गौ १, ३; अक्षि ६; रुह
४२; शि ६, ३९; -ग: महा २,
२६; ४२; सार २३८:२; २८२:
१४; शि २, २१; गौ १, ३३; ५,
२२; -गात् सांस् ३, ८; ४, २७;
-गान् ते ३, ५४; नाप ३, २५;
महा २, ६०; कुं ८; त्रिता १,
५६; शि १, ३१; ३३; ४, ३४;
४२; ४४; ५०; ५३; ५, ३०; ६, ४;
२२; ४७; ५६; ५९; ६५; ६७;
६९; ७७; २०४; २०७; २०९;
२१४; २१८; २२६; २३०;
२३४; २५८; २६९; २७२;
२७३; ७, ७३; गौ २, ५; ३, १२;
-गानाम् महा ५, १७१; -गाय
थोच् ७२; -गोन काम २२; मस्
४, १, १९; -गोभ्य: महा २, १३;
७१; शि ४, ३०; -गै: वृ ४, ३,
३३; शि ४, ३५; ६, ६; २७;
५४; ९८; १००; १८०; १८७;
२०३; २११; २४४; गौ १, ३२.
भोग-(स>)जा^३- -शा सार
२२३:४.

भोग-सत्(>) गोच् ७३.

भोग-ताम्युला(ल-आ)घ- -घा:
सार २६६: २३.

भोग-तृणा-विमोदि(न्>)नी-

-नीम् शि १, ६.

भोग-(द>)दा^४- -दा सौ १, ३.

भोग-दा(तृ>)त्री- -त्रीम् सार
२३२: ९.

भोग-दायिन्- -विने सार २७७:
११.

भोग-देश-काल-छाम- -भ:
सांस् ६, ५९.

१भोगद्रे^५ सार २५२: ३.

भोग-य(र>)रा- -रा सार

२८४: १४.

भोग-प्र(द>)दा^६- -दा सार
२२३: ४.

भोग-भुज्- -भुक् ते ५, ११.

भोग-भू- -भू: महा ३, ४८; वा
२, १४.

भोग-मात्र-साम्य- -लिङ्ग-

-ज्ञात् वस् ४, ४, २१.

भोग-मोक्ष- -क्षम्^७ रा ४२३:
१०; -क्षयो: हृद; -क्षौ वि २९.

भोगमोक्ष-विगीपा- -पया

शि १, ३५.

भोग-यो(य>)भ्या- -भ्या ते
६, ९१.

भोग-रूप, पा- -या सौ ३६;
-पाम्याम् सार २४७: ६.

भोग-लाल(सा>)स- -सम् ते
१, ४०.

भोग-व(त्>)ती^८- -ती सार
२२६: २; २३४: ५; २३८: १;
२४२: २१; २६२: २३; २६८:
१८; २६९: २; २८४: १४; -भ्या
सार २२३: ८.

भोगवत्या(ती-आ)दि- -द्वय:
सार २७०: ९.

भोग-वारि-संप्रदाय- -य: म
४८: १२.

भोग-वासना- -ना: महा ५,
७७; मु २, २, ४१.

भोग-विसर्जन- -ने १संख्या २,
३५.

भोग-दाकि- -क्ति: सौ ३६.

भोग-थी- -थी: महा ५, ७२.

भोग-मंघय- -यै: महा २, २५.

भोग-संभव- -वाव सार २५२: ३

भोग-साक्षि(न्>)गी- -यै सार
२४७: ५.

a) पा. १ पति. शोष: द्र. । b) पा ५, २, ३६ । c) कृमो^१ इति ध्रान्. । d) कर्त्रीच्छावियये ह्य: प्र. उस्. (पा ३, १, ५) । e) भार. । f) विमा. पा. 'भोगम्' इति वा 'भोगव' इति वा शोष: द्र. (उ. विता. संटि., अण्, ग.) । g) पा. 'भोगद्वृ-> -व्ये इति शोष: द्र. । h) समहारे द्रम. ।

भोग-साधन- नम् त्रिवि ५,
१३.

भोग-सुख-रूप- पाय सार
२४७ : १२.

भोग-स्थान- नम् सार २२५;
१८; २८४ : १.

भोग-स्थिति- -तौ १संन्या २,
३५.

भोगा(ग-आ)काङ्क्षा- -ङ्क्षा
१संन्या २, ८६.

भोगा(ग-आ)धमन्- -रत्नवे सार
२७७ : १२.

भोगा(ग-आत्मक>)निका-
-काम् सार २३२ : १२-१३;
-कवि सार २४७ : ५.

भोगा(ग-आ)दि- -दिभ्यः ब्रम्
२, २, ४०.

भोगा(ग-अ)पवर्ग- -र्गः रा
४२५ : २३.

भोगापवर्गा(ग-अ)र्थ- -र्थम्
योम् २, १८.

भोगा(ग-अ)मि(श>)ज्ञा- -ज्ञा
सार २८४ : १४.

भोगा(ग-आ)भोग^१- -गाःअस्ति
२३.

भोगा(ग-आ)यतन-निर्माण-
-णम् सांत् ५, ११४.

√भोगात्
भोगायमान- -नः अशि ६,
१३; वडु ३१७ : १९.

भोगा(ग-अ)र्थ- -र्थम् गौ १, ९,
-र्थे सार २३७ : २१; २५९ : १७.

भोगा(ग-अ)वस्था- -स्थायाम्
सार २८६ : २१.

भोगा(ग-आ)दा- -दाः महा
३, ५६.

भोगिन्- -नी गौ १६, १४.

भोगिनी- -नी सौ १, ३.

भोगे(ग-इ)च्छा- -च्छा महा ३,
४८; या२, १४; -च्छाम् महा ४,
१२८; अक्ष ४, ८२; सु २, २,
१५.

भोगेच्छा-सायक- -कः महा
५, ९७.

भोगे(ग-ए)क-वासना- -नाम्
महा ४, १०९.

भोगे(ग-ए)श्वर्य-गति- -तिम्
गौ २, ४३.

भोगे(ग-ए)श्वर्य-प्रसक्त- -क्ता-
नाम् गौ २, ४४.

भोग्य^१- -न्यम् छां ८, ९, २^१;
१०, २; ४; ११, १-२; धे १, १२;
के १, १८; नाप ९, ११; व ४;
भव२, ५७; ४, ५; न्ये अध्या ४१.

२भोगे(ग>)गा^१- -गा पी ४२२ : ९.

भोजन^१- -नम् छां ५, २, ७^१; ते
६, १५; जाद १, १९; शि २,
२८; सार २५४ : ५; गौ १७,
१०; -नात् सार २३४ : १८;
-ने शि ६, २६८; गु २३; -नेषु
शि ६, २६८; नैः महा २, २५.

भोजन-धीव-मार्जन- -नम् शि
७, ३३.

भोजना(न-आ)च्छादन- -नम्
नाप ५, ४.

भोजना(न-आ)घा(र>)रा-
-राम् शि ६, २६८.

भोजना(न-अ)र्थ- -र्थम् शि ६,
४४.

भोजनीय- -यः(श्याः) शा ३५

भोजनो(न-उ)च्छिष्ट-कृपा-
प्रसाद- -दात् सार २३४ : १८.

भोजयान- -नस्य इ १३ : १.

भोजयितृ- -त्ता वरा ३, १९.

भोजयित्वा भ २, २१^१.

भोज्य, ज्या^१- -ज्यः ते ६, ८९^१;
-ज्यम् गौ १, ५^१; २, २२; मैत्रि
६, १०^१; ते २, २२; ५, ११; ६,
१५; नाप ३, ६९; पाशु २,
४०-४३; वरा२, २६; सार२२२ :
८; भव ४, १९; -ज्या मैत्रि ६,
१०; -ज्यानि महा २, २६;
-ज्याय वपू १, ३.

भोज्य-स्व- -स्वम् मैत्रि ६, १०.

भोज्या(ज्य-आ)पक्ष- -क्षाः सार
२३८ : २.

भोज्या(ज्य-अ)र्थ- -र्थे सार
२३७ : १६.

√भुञ्ज, भुञ्ज-भुञ्जत्-भुञ्जमान-
सुज्ञान- √भुज् द.

१भुवन-
भुवना^१- -ना तारा ८३ : १४; १७;
-नाम् तारा ८३ : २.

२भुवन- √भू द.

*भुर-, *भुर्मा- उमा- टि. द.

भुवर्णायुदेवादाव्यदेहितेरस-
कारः^१ अद्वै १९.

भुवस् √भू द.

भुसुरा^१- -ण्डः वृजा १-३, १; ४, १;
१०; ६, १; म१, १^१; २, १; रक्षा
१, १^१; २, १; -ण्डम् वृजा १, १^१.

√भू(बधा.), > भावि, उभूय, योम्,
भवते सुं ३, १, ४; धे २, १४;
भवति क १, २, १; प्र ३, ११;
सुं १, १, ३; मां ९; तै १, ६, ३;
ऐ ४, १; छां ५, १, १५^१; वृ
१, २, १; कौ २, १४^१; त्रिवि ४,
५^१; अं २, ३, ७^१; जाद ५, १४^१;

a) वैपश् यद. b) ऋ ५, ८२, १। c) वा. ? यनि. शोषः द. (तु. वाध २, ११)। d) अग्निभो^१ इति
अप्या.। e) ०यम् इति संटि.। f) व्यु. ? = देवोविशेष-। g) वा. ?। h) व्यु. ? = ऋषिविशेष-। i) ०ण्डः इति
निमा. संटि.। j) ०ण्डः इति अख्या.। k) 'भवति' इति निसा.। l) 'गच्छति' इति शांशा ४, १४। m) 'गुनि'
इति मा ३१, १८। n) 'भवेत्' इति निसा., अख्या. संटि.। o) 'विमाति' इति अख्या.।

वरा २, ७५^०; सी ८^०; गोपू २^०;
भवतितराम् सार २२०^० : १०;
भवतः क १, २, २५; प्र ५, ५;
ऐ २, ५; छां ३, १७, ६; वृ ३,
५, १; हं ६; वृ ४, ५; सां १,
४; मोशि १, ५५; अप्या ४५;
सार २८९ : ७; भवन्ते इ १३;
१२; २०; भवन्ति के १, २; क
२, ३, २; प्र ३, ५; ऐ ५, २;
छां २, ६, २; १२, १; २३, १; वृ
१, ४, ७; खे ३, १; हं ८; गर्भे १;
मना १, ३९^०; राउ ५, ४^०; भवन्ति-
तराम् सार २६८ : २; २८३ :
१३^१; भवसि खे ४, ३९^०; वा
२; भवामि छां ८, १४, १; ससा
१, ४२; शु ३, ४; कुं २७; जाद
१, ३; गोड ६; सु १, १, ६; सार
२२७ : १६; गी १२, ७; भवामः
सार २४३ : १७; वपू १, ४; भवतु
तै शां ९^०; कै २, ५; ते ६, ७७,
शु १, ५; शिदि, १५७; गार ४०६ :
१२^१; श्वा ३; विद्या शां ९^०; भवन्तु
वृ ६, ३, ६९^०; मना २, ३९^०; नापू
३, ४९^०; सार २४८ : १४; शि
६, १५९; भव १, ५५^०; भवस्व
मना २, १७^०; भव>वा तै १,
११, २^०; वृ ६, ४, २८; मैत्रे २, २८^०;
मना १, १०^०; आरु ३९^०; तै ४,
८०; त्रिवि ८, १२; वा ७; शा
१, ७, १८; वृ ४३७ : ८९^०; भवानि
शौ ५२ : ५; २३ ३६ : १९^०;

अभवत् तै २, ६, १^०; वृ १, २, २;
मैत्रि ६, ३; मना १, ४९^०; वृजा ६,
१; वृ ६, १; सां ३, १; अव्य ५^०;
सा २, १; कृ १२^०; ?अभवत्
त्रिवि ४, ९; अभवताम् छा ३,
१९, १; वृ १, ४, ३; सार २४८ :
१०; अभवत् छां १, ४, ४; वृ १, ३,
७; १५; वृजा ६, ३; गोच ६९ : २०;
सार २४६ : १५; गार ४०५ : ९^०;
वपू १, २; अभवम् वृ १, ४,
१०; रुजा १, १; सार २२७ : ८;
भवेत् सुं २, २, ४; गौ २, ३, ७;
मैत्रि ६, ३४; मैत्रे २, १९;
हं २०; कै १, १८; जा ४^०; नाप
३, ७३^०; ५, १८^०; गहा ५, १८६^०;
पाशु २, ४२^०; भवेताम् सार
२४४ : २३; भवेयुः रुजा २, १०;
सार २४६ : १२; वपू १, ५;
भवेयम् सार २२७ : २३; वि
३०; भवेम सार २४१ : १४.
भृश अरु ६९^०; वृ ४६ : १३४^०.
बभूव क १, २, १८; छां १, २,
१३; वृ २, ५, १९; मं ४, ५; मैत्रि
५, २; म १^०; वृजा २, १; वृपू
२, १२^०; श ६; त्रिवि ८, ५; नी
२, १६^०; बभूवतुः वृ ४, ५, १;
बभूवुः प्र २, ३; छां १, ८, १; वृ
३, १, १^०; खे ५, ६; योचु ७२;
कृ १; २३ ३५ : १८; नापू ४,
१३९^०; सार २२९ : १३;
भवित्वा क १, १, ११; १६; नाप

३, ४८; राउ ३, ८; वटु ३१३ :
२; भव २, ३७; गी १८, ६९;
भविव्यति प्र २, १०; छां १, ९,
३; खे ६, २०; गी ३, २१; वृजा
६, ११; तै ६, ७६; ध्या ६५;
योचु ३५; सुह २; योशि १, ३५;
भविव्यन्ति छां १, ५, २; पा १;
१०; गी ११, ३२; भविव्यसि
अज १, ४; अशि १; भविव्यामि
प्र ६, ३; अशि १, २; भविव्यामः
सार २४८ : १३; गी २, १२;
भूयात् क १, २, ९; योचु ७८;
१अव ३३; सौ १, २; भूयासुः
मना १, ११९^०; भूयासम् तै १,
४, १; वृ ६, ३, ६^०; मना २, ९९^०;
नाप ४, ३८^०; वरा २, ८; ह
२०९^०; लिं ३१० : १०९^०;
अभूत् ई ७; क २, ३, १८; छां ५,
३, ७; वृ १, २, १; कौ ३, ७^०; वृजा
३, २; १योत १०; त्रिमा २, ३^०;
योधि १, ८; अव्य १^०; भूय वृ
६, २, ७^०; भ २, २८; अभूवत्
गोपू २४; सार २४६ : २०; वर
४, ३०; अभूः वृ ६, ४, २८^०; भूः
गी २, ४७; अभूवम् छां २, २२,
३; वृ १, ५, ३^०; भूवम् वरा २, ८;
९^०; अभूम अशि ३, ४; व २१;
१९; वटु ३१५ : २; अभविव्यत्
छां ७, २, १; अभविव्यः छां ५,
११, २.
भूयताम् सार २३३ : २.

a) 'भजति' इति अच्चा. । b) 'भगवती' इति निसा. । c) 'भाति' इति ध्यान. । d) तैश्चा १०, १, २ ।
e) सखत् 'भवति' इति अच्चा. । f) 'ति इति मुपा. यनि. शोधः द. । g) शौ १०, ८, २७ । h) ऋ १, ९०, ९ ।
i) ऋ १, ९०, ८ । j) 'भवन्तु' इति ऋ १, २२, १६ । k) पा. 'भजस्व' इति शोधः द. (तु. तैश्चा १०, ४३, १) ।
l) ऋ १, २२, १५ । m) धापमं २, ९, ५ । n) ऋ १, ९१, १६ । o) 'वान् इति पा. यनि. शोधः द. (तु. गोशा १, १,
२८) । p) मा ३२, १२ । q) सखत् 'भवेत्' इति अच्चा. । r) 'भवेत्' इति अच्चा. । s) 'अभवत्' इति ऋ १०,
९०, ४ । t) 'यतिः' इति अच्चा. । u) 'भजेत्' इति अच्चा. । v) 'भव' इति अच्चा. । w) 'त इति निवा. ।
x) ऋ १०, १५७, ३ । y) 'योधि' इति ऋ ५, ४, ९ । z) मा १६, ११ । a') ऋ १०, ७१, ७ । b') 'सन्तु' इति
मा ६, २२ । c') तैश्चा १०, ७, १ । d') तैश्चा ७, ४, १ । e') तैश्चा १०, ५१, १ । f') 'अभूत्' इति निसा. ।
g') ऋ ८, ४८, ३ ।

भावयति ऐ४, २; महा५, १२२;
 भावयन्ति योचू५६; सार२७२:
 २३; भावयन्तु गी ३, ११;
 भावयस्य वरा २, ४५; भावय ते
 ६, १०६; महा ४, १०; अज १,
 १९; या २, २३; वरा २, ४०; सु
 २, २, ७४; भावयत गी ३, ११;
 भावयेत् ऋषि ७; मैत्रे १, ४, ८;
 वसू २९; ते २, २४; १योत६९;
 रापू ५, ४; वा २४; सुद्र ३; शां
 १, ७, ४३; योशि ५, ३५.
 भाग्यते अज ४, ४७; ४९; ६०.
 बुभूपति वृ १, ३, १८; ४, १; ६,
 १, १; २; बुभूये(इवेत्^b) कौ२, ४.
 बोभवीमि वा ११; बोभुवे वा
 २२; बोभवीत् वा १८.
 §वभू(वसू>)तुपी^d -पी ह १६;
 चक्र ३.
 रभव^e -व: ते ४, १७; वसू पा
 १, ३; चात् महा ४, १०७; शा
 ३०; वे-वे मना २, १७५.
 भव-नाशन^f -नम् जाद १०, १.
 भव-प्रत्यय -य: योसू १, १९.
 भव-बन्धन -नम् विज्र ५, ७;
 -नात् ऋषि २०; योशि ६, ३१;
 सु १, १, ६.
 भव-बन्ध-मोचन^g -नाय दत्ता
 २.
 भव-बन्ध-विनाशि(व>)नी-
 नीम् सर १, ५.
 भव-बन्ध-विमोचन^h -नाय व
 ४५६: ६.
 भव-भय-सुक-पद -द:
 अज ४, ७२.

भव-भागिन् -गिन: भव १,
 १८.
 भव-भाम -माय नी १, ४.
 भव-भावन-यजन -नात् अज
 ४, ८८; सु २, २, २८.
 भव भावना -नया महा ४,
 ९२; ५, १३५.
 भव-भीत -त: दे १९.
 भव-भूत -तम् खे ६, ५.
 भव-भोग-महा(हा-अ)गैव-
 चात् शि ४, २८.
 भव-भ्रम -म: विज्र ५, ५.
 भव-मन्यु -न्यवे नी १, ४.
 भव-मुक्ति -कये त्रिमा २,
 १४३.
 भव-मोचन -नम् वज १, २६.
 भव-रोग -ग: जाद ७, १०;
 -नात् व ४५५: ११.
 भव-वर्जित-चिन्-मात्र -ग्रम्
 ते २, २५.
 भव-संताप-निर्वापण-सुधा-
 नदी -दीम् सर ३, ६.
 भव-सागर -रम् यो ३, १८;
 योशि ६, ७९; -रात् शि १, ३; ४,
 ५४.
 भव-दिशति -तौ अज ५, १०५.
 भवा(व-अ)न्त -न्त: महा ४, ६६
 भवा(व-अ)न्तर -रे कृ १.
 भवा(व-अ)व्यय -यौ गी ११, २
 भवा(व-अ)रि -रिम् रापू ५, ८.
 भवा(व-अ)गैव -वात् महा ४,
 ४०; ५, ८४; १७४; -वे महा ५,
 ७६.
 भवो(व-उ)दधि-महा-सेतु -तु:

योचू १०८.
 भवो(व-उ)दध-वसू ते ३, ५०;
 -वाय मना २, १७५.
 √भय्
 भयमान^b -नम् मना १,
 ११५.
 ३भय^c -व: मै ५, ८; मैत्रि ६, ८; ७,
 ७; मन्त्रि १२; द ५; सुसु २०;
 चू १२; गी १०, ४; -वाय मना
 २, १६५^k; म १, ६; पा १, १; ३;
 ९, ७; नी ३, ७; -चेन नी ३, ४.
 १ भवानी^l -०नि व ४४९:
 ६; -नी यु ६४; -नीम् सर ३, ६.
 २ भवानी^m -
 भवानी-तट-स्थ-
 -स्थम् वृजा ६, १.
 भवानी-पति -तिम् द
 १४.
 भव-लिङ्ग -ङ्गाय मना २, १६५.
 २ भवत् -वत् मां १; वृ ३, ८, ३;
 ४; ७; वृपू ४, ३; वृ १, ३;
 योचू ७२.
 भवन्ती -न्त्य: सार२४१: १२.
 भवन -नम् सार २६२: १.
 भवितव्य -व्यम् महा ४, २६.
 भविव्य -व्याणि गी ७, २६.
 भविव्यत् -व्यत् मा १; वृ ३, ८,
 ३; ४; ६; ७; मै ५, ५; मैत्रि ६, ५;
 कौ १, ५; वृपू ४, ३; वृ १, २;
 ते २, २८; नाप ८, ३; ९, १३;
 योचू ७२; राउ ३, १; ४, ३५;
 सुद्र २; ए ६; अज २, २८; ५,
 ५७; ता २, ५; गोपू २५; गोउ
 ६१ⁿ; १शि३४७^o; २शि३११^o;

a) °वयद् इति श्रव्या । b) निसा. पा.१ यनि. शोध: द्र. (तु. आन., शाश्रा ४, ४; वैतु. श्रव्या. 'बभूये' इति) ।
 c) घृ १, १६४, ५१ । d) वैप१ यद्र. । e) =उत्पत्ति-, संसार- ? । f) तैश्रा १०, ४३, १ । g) उप. कर्तारि कृत ।
 h) कर्मकर्तारि रु. द्र. । i) पा. 'भय्यम्, आन-($\sqrt{\text{भय्}}$) -नम्' इति पदद्वयमिति नादी. (तु. j.c., B.C.),
 'भय्यमा (व्यम् आ)' इति निसा. च [तु. तैश्रा. (१०, १, १) इत्यत्र सा. संमत: पाभे. च] यनि. शोध: द्र. । j) धा.
 अर्थ: ? =दृ- । k) तैश्राशा १०, १६ । l) =भवपत्नी- । m) =नदीविशेष । n) 'भविव्यति' इति आन., 'भविव्यत्'
 इति श्रव्या. संति. । o) मा ३४, ४ ।

वड१,२; सांस्१,१५८; न्यताम्
 गी १०, ३४; न्यते वृ ६, ३, ३;
 न्यन्तः वृ १, ४, ९.
 भविष्यच्-चित्त-जीवा(व-आ)-
 दि-नाम-शब्दा(व्-अ)र्थ-
 भाजन- -नम् महा ५, १०.
 भविष्यज्-जगद्-रूप- -यम्
 गोपू २५.
 भविष्यद्-दुःख-योधा-
 (ध-आद्य)व्या- -व्या महा
 ५, १९.
 भविष्यद्-वृत्ति- -स्या गी ३,
 १४.

भव्य- --०व्य अक्ष ५; न्यम् शेरे,
 १५१५; ४, ९; मै ५, ५; मैत्रि ६,
 ५; अशि ६, ११; कै १, ९; ना २;
 मना १, ११६; २, ५९१; सुबा ६१५;
 ते २, २८; ५, ७८; नाप ८, ३, ९,
 १३; राड ३, १; ४, ३५; मुद्र २;
 ता २, ५; गु ५४; कलि ४२२;
 १६; वट्ट ३१७; १७; वड १, २;
 ३, २; न्यात् क १, २, १४; न्येन
 नाप ३, ५०.
 भव्य-भावा(व-अ)न्त-भूमि-
 -मौ महा ६, ४०.
 भव्य-वृक्ष-जला(ल-अ)-
 न्वित- -तम् शि २, १७.
 भव्या(व्य-अ)भव्य- -व्यान् पा
 २, ८.

१ भाव- -वः गौ ३, २०; २२; त्रवि
 ७; त्रवि ३८; ३९; नाप ३, २०;
 १वोत ५३; त्रिना २, २१;
 शां १, ७, १०; महा २, ६७; ३,
 ५१; योशि ५, ५५; १संन्या २,
 ३९; अज ४, ४९; अथा १;
 त्रिता ५, ७; यो २, ४७; वरा ४,
 २५; सु १, २३; २, २, ४; सार

२२८; १३; २५५; ८; २८७;
 १७; शि ७, ३८; भव ३, १९;
 विं ५, ८; ६, १; अवि ७; सांस्
 १, ४४; त्रस् २, २, ३०; गी २,
 १६; ८, ४; २०; १८, १७; -वम्
 गौ २, २९; अना १४; अशि ३,
 ६; ते २, १; ६, ५; नाप ३, २२; ५,
 १; महा ५, १८२; योशि ६, ३७;
 तो २, १२; च २१; २०; सार
 २२७; १३; २२९; १९; ३३;
 २३९; २२; २४०; १३; वट्ट
 ३१५; ६; विं ५, ८; ९; १०; ६,
 २; अवि ४; त्रस् १, ३, ३३; ३, ४,
 ४२; ४, ११; गी ७, १५; २४;
 ८, ६; ९, ११; १८, २०; -वस्य
 गौ ३, २०; -वाः सुं २, १, १; गौ
 २, ३३; मन्त्रि १८; मुद्र ४; महा
 ३, ४; ५; १३; १३५; अज ४, ४;
 सार २४८; १८; भव १, २६; ४,
 ७; विं ५, ८; ९; १०; ६, २; चू
 १८; सांका ४३; गी ७, १२; १०,
 ५; -वात् महा ५, ९४; त्रस् १,
 ३, ३२; २, २, १४; ३, ३, १३;
 -वानु शे ६, ४; गौ २, १३; १६;
 अशि ४, २३; अज ३, १३; वट्ट
 ३१६; १६; -वानाम् गौ २, १;
 अक्षि २४; अक्ष ५, ४; विं ५,
 ८; -वे घ्या ८; १संन्या २, ३६;
 सार २५५; ८; सांस् १, ८०;
 ११९; त्रस् २, १, १५; ४, १४;
 -वेन त्रवि ७; अशि ३, ७;
 १संन्या २, ३६; अक्ष १४; त्रिता
 ५, ७; यो २, ४६; सौ २, १२; च
 २१; २१; सार २४२; १७;
 २५५; ८; २८३; ६; वट्ट ३१५;
 ६; -वेषु महा ३, ६; गी १०, १७;
 -वेः गौ २, १७; १९; ३३; ह्यु २०;

सांका ४०; ५२; गी ७, १३.
 भाव-कलना- -ना महा ५, ४४.
 भाव-माह- -ह्यम् शे ५, १४.
 भाव-तीर्थ- -थंम् जाद ४, ५१.
 भाव-स्व- -स्वम् ते १, ४२.
 भाव-निर्वृत्ति- -त्तिः सांका ५२.
 भाव-प्रकटित- -तः सार २५१; १
 भाव-प्रतीति- -तेः सांका ५, ९३.
 भाव-भावना- -नया विं ५,
 ९; -नाम् विं ५, १०.
 भाव-भासव्य-वृत्त्या(व्या-आ)-
 शा-मोहा(ह-आ)दि- -रहित-
 -तः वसू २६.
 भाव-योग- -गः सांस् १, ११९.
 भाव-विकार- -राणाम् महा ४,
 १२०.
 भाव-वृत्ति- -स्या ते १, ४२.
 भाव-शब्द- -ब्दात् त्रस् ३,
 ४, २२.
 भाव-शु(द) -द्वा- -द्वा सार
 २३४; ६.
 भाव-शुद्धि- -द्धिः भव ५, २०;
 -द्धिम् व ५.
 भावशुद्धय(द्धि-अ)र्थ- -थंम्
 जाद ४, ५६.
 भाव-श्री- -श्रीम् महा ६, १.
 भाव-संवि-प्रकटित(त)ता-
 -ताम् सु २, २, २४.
 भाव-संशुद्धि- -द्धिः गौ १७, १६.
 भाव-संप्राप्त- -ह्यम् ते १, ७.
 भाव-समन्वित- -ताः गौ १०, ८.
 भावा(व-आख्या)थ्य- -थ्यः
 सावा ५२.
 भावा(व-अ)तीत- -तम् शु १,
 १८.
 भावा(व-आ)स्म-शुद्धि- -द्धिः
 शि ५, ४४.

a) वैप१ यद्र. । b) ऋ १०, ९०, २। c) तैआ १०, १, १। d) तैआ १०, ६३, १। e) पा। भूमि-> -मौ
 द्येवं शोधः इ. । f) 'भवः' इति अख्या. । g) अ० इति अख्या. । h) 'वासुः' इति आन. । i) लोभमदमा० इति
 अख्या. संटि. । j) °ता इति निसा. । k) भावनासं० इति आन. ।

भावा(व-अ)द्वैत- -तम् स्व
६२:४.

भावा(व-अ)नुरूप- -पेण महा
४,१२५;१२६.

भावा(व-अ)पद्म,ज्ञा- -अः सार
२३६:८; २५७:३; २७८:१८;

२८९:३; २९२:१५; -तम् सार
२५१:९; २८८:२०; -आ सार

२८६:११; २८८:२१; २२;
-आः सार २२५:१६; २३०:

१; २३२:५; २३९:६; २४८:
१८; २७२:५; २७४:२; ९;

२७६:३; -ज्ञैः सार २३०:१९.
भावा(व-अ)भाव- -वम् अक्ष ५,

६७; -वान् पा२,८; -वे अक्ष ५,
५; -वौ अक्ष २, ३६; मं २,३,

६; महा ४,१०९.
भावाभाव-कर- -रम् श्वे ५, १४

भावाभाव-कला- -विनिर्मु-
(क>)का- -क्का व १०.

भावाभाव-गोचर(र>)रा-
-रा महा ५, ४४.

भावाभाव-दशा-कोश-
-तम् अक्ष ४,४०.

भावाभाव-दहन- -नम्
निर्वा २९८:१०.

भावाभाव-विनिर्मुक्त- -कम्
महा ६,७२^b; योशि ३,२२.

भावाभाव-विहीन- -नः मैत्रे
३, ५.

भावाभावा(व-अ)दि-द्वन्द्वा-
(न्द-अ)वीत- -तः मं ३,१,३.

भावाभावा(व-अ)दि-भेद-
भावाभावादिभेद-तत्स
(>) १आ २.

भावा(व-अ)भि(ज्ञ>)ज्ञा^१- -ज्ञा
सार २६२:१०.

भावा(व-अ)धि(त>)ता- -ताः
सार २५४:८.

भावो(व-उ)सा(ह>)हा^१- -हा
सार २८२:११.

२भाव^०- -वम् ते ५,८९.
भावन- -नम् विवि ८,८; अक्ष ४,

५०; महा २, ९७; पि १६^d;
-नास् ते १,३१.

भावना- -नया त्रिवि ५,१२; ८,५;
महा ४,१६; ५,११२; -ना मं २,

२,५०; योशि ३,२४; अक्ष २,२;
५,३८; भा ४३^१; नापू ४,१८;

गौ २,६६; -नाम् मैत्रे २,२८;
अक्ष ५,९५; १०४; वरा ४,१९;

पित्र ५,१०.
भावना-वस(>) योस् १,३३.

भावना(ना-अ)विग- -नाम् मैत्रे
१,४,९.

भावना-त्रय-नाशन- -नम् सु
१,१,४०.

भावना-पर- -रः भा ४१^६.
भावना(ना-अ)भाव-मात्र-

-त्रेण महा ५,१८३^१.
भावना-भ(य>)धी- -धीम्

महा ६,१.
भावन-मात्र- -त्रम् योशि ३,

२३.
भावनामात्र-गोचर- -रम्

योशि ३,२२.
भावन-युक्त- -क्तः भा २७.

भावन(ना-अ)र्थ- -र्थाय जाद
४,५९.
भावनो(ना-उ)पचय- -यात्

सांस् ३, २९.
भावयत्- -यत् महा ५,१५४; -यम्

नाप ५, ३८; अता २; मं २,४,
६; महा ३,५७; ६,३७; योशि

५,५३; पप ४१९:९; अक्ष ४,
६७; गोच ६६:१९; सुसु १९;

-यन्तः शा ११; सार २४६:
१५; गौ ३,११.

भावयन्ती- -न्ती महा ५,
१८०^१५.

भावयित(व्य>)व्या- -व्या ऐ ४,३
भावयि(वु>)त्री- -त्री ऐ ४,३.

भावयित्वा १योत ८२; अक्ष १४;
सुसु ६.

भावित,ता- -तः शि ५,४५; -तम्
ते १,५०; महा ५,१२२; सु ३,

२,५८; -ताः पित्र ५,९; -ताम् सु
३५; -ते महा ६,४२; अक्ष ५,

२१; -तेन अक्ष ५,१४; त्रि १५^१.
भाविन्-

भावि-कर्मन्- -र्मभिः अध्या ५१.
भाव्य^१ यो ३.

भाव्य- -व्यम् ते ५,८६; १योत ७५.
भाव्यमान- -नः श १९; महा ४,

६७; -नाः भा ६.
२शुवन^k- -नम् क २,२,९; १०; तै

३,१०, ६; श्वे २,१७; मना २,
२४१^१; वृजा २,१; नृपू २, १२;

१८१^m; ते ६,१०३; वरा २,२३;
भ २, ६१^१; गोपू १६; सु २९४^१;

२०; १शिसं ४१ⁿ; २शिसं ११ⁿ;
-नस्य सुं १,१,१; छां ४,३,६;

श्वे ४,१५; ६,१५; १७; मना १,
११^०; २१^०; १४^०; १५^०; २,
४७१^०; नृपू २,१२; ए १-३; ९;

a) °वम्, °वे इति श्रव्या. संटि. । b) 'भवभावनया युक्तम्' इति श्रव्या. । c) करणे वाङ्घिकरणे वा कृत् । विप. । d) 'वानाम्' इति श्रान. । e) सर्वारम्भा° इति श्रव्या. संटि. । f) 'अन्तश्चक्रभावनाः' इति तान्त्रि. । g) 'नया युक्तः' इति निसा. संटि. । h) 'न्ति' इति निसा. यनि. शोधः द्र. (त. श्रव्या.) । i) पा° इति तान्त्रि. । j) पा ७,१,३८ । k) वै११ यद. । l) तैश्चा १०, १६, १ । m) कौ ३,१,९ । n) मा ३४,४ । o) तैश्चा १०, १, १ । p) तैश्चा १०,१,२ । q) सङ्घट 'भूतस्य' इति तैश्चा १०,१,१४ । r) श्र ९,९,५,४० । s) तैश्चा ३,७,७,२ ।

वा१३; १८; हे २; ७; लिं ३१०;
 ३४; गु ५८; -ना म २, ४५;
 वा ८; ११; रशिसं ३५४; व
 ४३८; १८४; अर १४; -नामि
 श्वे ३, २; ४, ४; गौ २, २४; मैत्रि
 ६, ३८; मना १, ३४; ४४;
 अशि ५, ४; ६, २४; ३४; वृषू
 २, १०; १३; सुवा २४; रापू
 ३, १; त्रिता ४, ३६; गोपू १५;
 आपें ९; १५; नापू ४, ११;
 षट् ३१६; १८; ३१७; ४; गु
 २९; व ४३७; ७४; -ने सार
 २३०; १४.

भुवन-ज्ञान- -नम् शां १, ७;
 ५२; योसु ३, २७.

भुवन-त्रय- -ये ते १, ४४; अक्ष
 २, ३५.

भुवन-धारि(न्>)णी- -णि
 हंशो १३.

भुवन-मण्डल- -लम् ते ५, ७६.

भुवना(न-आ)धार(र>)रा- -रा
 सी १९.

भुवना(न-आ)धि-पति-
 भुवनाधिपति-विशांपति-
 पशुपति-स्थाणु-भव- -वा: सूता
 ५, ८.

भुवना(न-आ)राधित- -त: चक्र
 १०.

भुवने(न-ई)श- -शम् श्वे ६, ७.
 भुवनेशी^१-

भुवनेशी-द्वय- -यम्
 दया ३.

भुवने(न-ई)श्व(र>)री^१- -री

व २०.

भुवस(>र)^१ ते १, ५, १-२;
 ३; ६, १; छां २, २३, २; ३, १५,
 ३; ६; ४, १७, २; ५; वृ ५, ५, ३;
 ४; ६, ३, ३; ६; ४, २५; मै ५,
 ५; मैत्रि ६, ५; मना २, ३४;
 अशि ६, १७; ध्या १०; योचू
 ८५; त्रिवि ७, ४४; ४; नाप ४,
 ३८; ४५.

भुवःपति-

भुवःपति-नव- -नवम् वपूर, ६

भुवः-पुरुष- -प: सूता ४, १०.

भुवर-लोक^१- -क: नाद ३; गु
 १३; -कम् वृजा ८, ४; वृषू ५, १६;
 वज ५, ११; -का: -केपु सुवा १०.

भुवलोक-ज्ञान- -नम् शां १,
 ७, ५२.

भू^१- भुवम् अशि ६, १७; नाप
 ३, ६६; १संन्या २, ५५; पा ८, ६;
 सं ८; वज ३, २७; भुवि सु २,
 २, ७; त्रिवि २४; २७; त्रिना २,
 ५०; रापू १, ३; ५; महा ४,
 १७; कुं १९; गोउ ३२; भव
 १, ५५; गौ १८, ६९; भू: ते
 २, २७; ए ११; अक्ष १, २२;
 शारी ६; त्रि ५; गोपू ३०;
 पा ५, ६; ८, ६; सार २७ १: १२;
 १३; २३; २८४: ११; सिशि
 ३८२: १०.

भू-गृह- -हम् रापू ४, ५२.

भू-गोल-चक्र- -के गोउ १९.

भू-चर- -रा: वरा ४, ४४;

-राणाम् १योत ५९.

भूचर-सिद्धि- -दि: १योत
 ५९.

भू-तल- -लम् ते ६, २०; -ले
 अक्ष २, २३; वरा २, ७८; १योत
 ५४; सी ६; यो २, ३.

भूतल-शयन- -न: पप
 ४१९: १६.

भू-वे(व>)वी- -वी सी १७.

भू-धर-तट- -ट्टे सारा ८३: १२.

भू-प- -प भव २, २९; -पा:
 वरा ३, २२.

भू-पति- -ति: कृ १५.

भू-पाल- -ल: महा २, १९.

भू-पुर- -रम् रा ३, १; नापू
 ६, ४.

भू-पुर-चतुष्टय- -यम् त्रिवि
 ७, ४८.

भू-पुरा(र-अ)न्तर(>) रा २
 ३, १.

भू-पुरै(र-ए)क- -केण रया ९.

भू-विन्व-त्रय- -यम् पी ४२१:
 ७.

भू-भार- -रम् सं १४.

भू-मण्डल-वासि(न>)नी-
 -नी गार ४०६: १८.

भू-मण्डल(ल-आ)धिपत्य-
 प्रद- -दाय व ४५६: ७.

भू-रजस- -ज: ते ६, ८१.

भू-लोक^१-

भूलोक-ज्ञान- -नम् शां १,
 ७, ५२.

भूलोक-भुवलोक- -कौ
 १संन्या २, ५९.

a) अ २, ४१, १। b) तैसं ५, ५, १, ३। c) तैसं ५, ५, १, ३। d) अ १०, १५७, १। e) 'मृत्यान्' इति
 अ ४, ५८, ३। f) 'गृहा' इति मा ३२, ८। g) मा ८, ३६। h) शौ ७, ९२, १। i) अ १, १५४, २। j) अ १,
 ३५, २। k) =माया- (=ह्रीं-बीजाक्षर-)। वैप्र. तु<०नेश(र>)री- (तु. एउ.)। l) =देवीविरोध-। m) =व्याहृति-
 विरोध-। वैप्र १ यद.। n) तैआ १०, ३, १। o) तैआ १०, १५, १। p) तैआ १०, २७, १। q) तैआ २, ५, ८, ८।
 r) ०^१ इति सुपा. यनि. श्लोभ: द्र.। s) =भूमि-। t) 'भुवम्' इति आन.। u) =भुवस (वेतु. पाटी). भू-भू->
 -भुवम् इतीव १। v) 'भुवि' इति अश्या.। w) 'भूमे:' इति तान्त्रि.। x) 'भमि:' इति निसा.। y) ०गोपालच
 इति निसा., ०लोकच ० इति आन.।

भू-स्थ-स्थः छाग २५,८; पा ५, ६; स्थम् पा ५, ६.

२भू- भुवे वा २२.

३भू- भूः राष्ट्र ४,६२.

भू-माया- -याम् पी ४२२:२.

!भूमाप्रविन्दु- -न्दुम् पी ४२१: ८.

भूत्,ता- -त्तः मना २,१२,१९^१; अशि ४,१०; मै ४,५; मैत्रि ५, २; महा ५,४; २आ ३; पा ९, ९; वट्ट ३१६:१०; अद्वैभा १५; -त्तम् मां १; छां ३,१२, १^१; २;

१५,४; वृ ३,८,३; ४;६;७; धे ३,५^१; ४,९; गौ ४,४; मै ५,५; मैत्रि ५,२९^१; ६,५; कै १,९; ना २; मना १, १९^१; २, २४^१; ७,९^१; अशि ६,१०; ११; कौ १, ५; वृ ४, ३; वृ १, २;

सुवा ६^१; ते २, २८; ५, ३५; ४३; ७८; ६,१०५; घ्या ६५; नाप ८,३; ९, १३; योचू ३५; ७२; शर ४; राउ ३,१; ४,३५; मुद्र २; ए ६; अज ५,५७; म २, ६^१; ता २,५; २प्र ३७:२; पा २,६; वट्ट ३१७:१७; १शिंस ४^१; २शिंस १^१; कालि ४०२:

१६; गु ५४; वर १,२; ३,२; मध १,२, २७; गौ १०, ३९; -त्तय वृ २,४,१०; ४,५, ११; गौ ४,३; मैत्रि ६,३२; कौ १,६; सुवा २; इ ११: २; -ता मना २,२८^१; -सा: मना २,६७^१;

श्या १९; -तात् क १,२, १४; गौ ४,३८; -तानाम् मां ६; तै २,

२-३, १^१; छां १, १,२; ६, ३, १; वृ १, ४, १६; ५, २०; २, १,२^१; ४,५,१,१-१४; १५^१; ४, १,७^१; ४,४; ५,६; ६,४,१; गौ १,८; ४,३३; मैत्रि ५,२; ६,३७; जा १^१; मना २,१५^१; ७,९^१;

कौ २,६९^१; १४; ४,२^१; २०^१; वृ २, १३; ३,५; ४,६ वृ १, ९; सुवा १; नाप ३,४५; ४,३३; ५,१८; ८,१५; राउ १,१^१; ३, १; महा ६,६५; १संन्या २,९४; कुं १४; त्रिता ५,२१; रट्ट १३; म २,११; ता १,१^१; गोउ २०; पा २,७; ३,४; नापू २,११; शि १,१६; ७,२; विद्या ४; वपू २, ३; वर १,१२; भव १,११,५,९; सांका ६९; गौ ४,६; १०,५; २०; २२; ११,२; १३, १५; १८,४६; -चानि ई ६; ७; के ४,६; प्र ४, ११; तै २, २,१^१; ३, १,१-६; ऐ ३, १३; छां १,९,१; ११,५; ७; ९; २,९,२; ३, १२,६^१; १९, ३^१; ५,१०,८; २४,५; ८, १,४; ११, १; २; वृ १, ४, १६; ५, २०^१; २,१,२०; ४,५^१; ६^१; ५, १-१५; ३,७,१^१; २; १५^१; ४,१, २^१; ३-७; ३,३२; ३७,५,६^१; ७^१; ११; ५,१२,१^१; १३,२^१; ३^१; धे १,२; गौ २,२०; मै ५,७; मैत्रि ६, ७; १२^१; १३-१५; २८; ३२^१; मना १, १^१; ४^१; २, २९^१; ७८^१; कौ २,१; २; ६^१; ९^१; ३,४; वृ १,२; ८; २,८-१२; १४; ३, ५; वृ ९,८; सुवा २^१; घ्या ६; नाप

९,१; त्रिवि २,१६; ४,९^१; श २४; शां ३, १; पै १, १८^१; महा १, १; ४, ३०; योशि ३, १६; ए १२; अज ५,७९; ८०; सू ८; २०; १आ ९; त्रिता ५, २१; जाद १०,१०; ११; म २, ९^१; प्रा ४,१^१; गोउ १५; ४०; कद १५; २प्र ३२; ४; ८; शौ ५; १५; ५२; १; ५३; ११; ५४; १; सूता १, १३^१; नाउ ३, २१; सं ५; नो २, ३; शि १, ११; सिशि ३८२: ७; वपू १, २; ४; २,१; ३; वर २, ३५; ४, ४०; ४४; भव २, ५४; सांका ३८; गौ २, २८; ३०; ३४; ६९; ३, १४; ३३; ४, ३५; ७, ६; २६; ८, २२; ९, ५; ६; २५; १५, १३; १६; -ताय वृ ६, ३, ३; वर २, ३; -ते यो १, ७६; -ते-वे त्रिवि १२; २०; त्रिमा २,२; त्रिता ५,१२; अवि १२; २०; -तेन सूता २, १८; -तेभिः क २, १,६; ७; म २, ९; -तेभ्यः वृ २, ४, १२ ३,७, १५; ४, ५, १३; मना २, ६७^१; सुवा ७; त्रिमा २, ६ अध्या ७०; शि २,२९; वर ४, २३; -तेषु क १,३,१२; छां ५, १८; १; २४,२; वृ ३, ७, १५; मै ४,५; मैत्रि ५, २; त्रिवि २२; मना २, ६८^१; वृजा २, १; ते ५,६३; त्रिमा २,१२३; वा २९; ३०; त्रिता ४, २२; प्रा १, ६^१; गोउ १५; इ १८: ६; ६ ८; भव २, ५४; अवि २२;

a) =मपा-। b) =लक्षर-बीजाक्षर-। c) =हो-बीजमन्त्रविशेष-। d) पा. अर्थध-। e) मपा. द्र.। f) तैआ १०,१०,१। g) श्र १०,९०,२। h) तैआ १०,११,१। i) तैआ १०,१,२०। j) तैआ १०,६३,१। k) तैआ १०, १६,१। l) मा ३४, ४। m) तैआ १०,११,१। n) तैआ १०,६७। o) तैआ १०, १४, १। p) तैआ १०, ६३, १। q) 'तेषु इति शांका ४,६। r) सहर 'देवानाम्' इति ध्वन्या., शांका ६, २०। s) श्र १०,९०,३। मा ३२,११। u) तैआ १०,२२, १। v) तैआ १०,६२,१। w) तैआ २,१,१। x) 'भूतगुणाः' इति निपा. गति, 'गुणाः' इति घन्या। y) तैमं ४,५,१,३। z) तैआ १०,३,१,१।

मू ४, २, ५; गी ७, ११; ८, २०;
१३, १६; २७; १६, २; १८,
२१; ५४; -तेषु-तेषु के २, ५;
-तैः सुं २, १, ९; अ ३.

भौतिक- -कः सांज्ञ ५३;
-कम् शु ३, १०; अक्ष ४, २९;
-कानि पै ३, १; सांम् २, २०.

भूत-क्षय- -यात् वरा ५, ६.
भूत-गण- -गम् मैत्रि ३, ३;
-गात् गी १७, ४.

भूत-ग्राम- -मः २प्र ३७:२; गी
८, १९; -मम् गी ९, ८; १७, ६.

भूतग्राम-वत् मू ३, २, ३५.
भूत-चैतन्य- -न्यम् सांम् ५,
१३०.

भूत-जय- -यः योम् ३, ४५.

भूत-जाति- -तयः महा ३, ५२.

भूत-तन्मात्र-वेष्टित- -तम् महा
५, १५२.

भूत-तत्स(>) गी ३, २३.

भूत-त्रि-गुण- -गम् मै ३, ३.

भूत-दर्शन- -नात् गी ४, २५.

भूत-द्रिक्-पाल-बीज- -जानि
शिवि ७, ४८.

भूत-धारण- -णम् वरा ५, ६.

भूत-नाथ- -थम् शि ६, ११५.

भूत-नाश-कर- -र अक्ष ५^१.

भूत-पञ्चक- -के पै ३, १.

भूत-पति- -तिः ऐ १; ५.

भूत-पदाथी(यं-थ्यो)ध- -धः
महा २, ६६^१०.

भूत-परं-परा- -रा अक्ष ५, २०.

भूत-पाल- -ळः वृ ४, ४, २२;

मैत्रि ७, ७; जनि १०२.

भूत-पिशाच-शाकिनी-प्रेत-
वैराक-नाशक- -कः रुप ८५;
१८.

भूत-पृथग्-भाव- -वम् गी

१३, ३०.

भूत-प्रकृति-

भूतप्रकृति-व- -वम् सांम्
५, ८४.

भूत-प्रकृति-मोक्ष- -क्षम् गी
१३, ३४.

भूत-प्रसाधित-का- -र अक्ष ५

भूत-प्रेत-पिशाचक- -काः व
४५६: १६.

भूत-प्रेत-पिशाच-महाराक्षस-
नवप्रह-भूत-वेताल-शाकिनी-

डाकिनी-कूर्मण्ड-वासव-
-वाः व ४३६: ८.

भूत-प्रेत-पिशाच-महाराक्षस-
सकलकिशिया(व-आ)दि-

महा-रोग-विष- -पम् व
४६५: ७.

भूत-प्रेत-पिशाच-महाराक्षसा-
(स-अ)परमार-भवभीति-

-तिभ्यः वृजा १, १.

भूत-प्रेत-पिशाचा(व-आ)घ-
-घाः राज ५, १०.

भूत-भर्तृ- -र्तृ गी १३, १६.

भूत-भविष्यद्-वर्तमान-
काल- -ज्ञान-

भूतभविष्यद्-वर्तमानकाल-
ज्ञान-दूरदृष्टि-दूरस्थप्रवण-

-णम् व ४५७: १५.

भूत-भव- -व्यस्य क २, १५;

१२; १३; वृ ४, १५; पं १.

भूत-भाव^०- -०न गी १०, १५;

-नः तेष, ४१; जाद १, १; गी २, ५.

भूत-भावि(वृ>)नी- -नी
नमि ५; वृ ५.

भूत-भावे(व-उ)द्रव- -क-
-रः गी ८, ३.

भूत-भृत्- -भृत् गी ९, ५.

भूत-भौतिक- -कः ते ५, १०.

भूत-महेश्वर- -रम् गी ९, ११.

भूत-माया- -या कौ ३, ५^१;

-याः कौ ३, ८^१; ९.

भूत-माया- -या महा ५, १११.

भूत-माख- -तः त्रिमा २, १४०.

भूत-मुक्ता(क-आ)वली-

तन्तु- -न्तम् महा ४, २३^०.

भूत-योनि- -निः शां २, १; -निम्
सुं १, १, ६; कै १, ७; रुद्र ३२.

भूत-राज- -राद् नाप ८, १०.

भूत-लोक- -काः योशि ६, ११.

भूत-वत् गी ४, ४१.

भूत-विकार-विभाग- -गाः,
-गात् त्रिमा १, ४^१.

भूत-विद्- -वित् वृ ३, ७, १.

भूत-विद्या^१- -द्या छां ७, १, ५;

-द्याम् छां ७, १, २; २, १, ७, १.

भूत-विभाग- -ने वृ ४, २२.

भूत-विशेष-संघ- -घात् गी
११, १५.

भूत-वेताल-कूर्मण्ड-पिशाच-

प्रेत-राक्षस-यक्ष-भयप्रद-

-दानात् गर २४.

भूत-वेताल-परिदृ(त>)ता-

-०ते व ४३१: १४.

भूत-शब्द- -ब्देन मै ३, २^१;

मैत्रि ३, २^१.

भूत-श्राद्ध- -द्धे नाप ४, ३८.

भूत-सत्य-तुरीय-भारा- -गेन
पै २, १५.

भूत-सर्षप(रव-अं)ज्ञ-भाग-

त्रय- -समष्टि-

भूतसर्षप(रव-अं)ज्ञ-भाग-

समष्टि-
तत्स(>) पै २, १३.

भूत-समागम- -मः भव १, २२.

भूत-संज्ञक- -वाद् इ १९: १२.

भूत-संमोहन- -ने मन्त्रि २;

वृ २.

a) ०वत् इति निरा. अज्जा. यनि. शोषः द्र.। b) उप. कर्तृरि क्त। c) ०न्तु इति अज्जा. संदि.।

d) ०णादिः दति निरा.।

भूत-सर्ग- गौ गी १६, ६.
 भूत-स्थ- स्थः गी ९, ५.
 भूत-हित-अथार्था(र्थ-अ)भि-
 भाषण- -णम् शां १, १.
 भूत-हृत्-पद्म-पट्टपद- -दम्
 महा ५, १५३.
 भूता(त-आ)मन्- -स्मनः मै ४,
 ३; मंत्रि ४, १; ३; -स्मा मै ३, २^{१०};
 ३^१; ५; ४, २; मैत्रि ३, २; ३^१; ५;
 ४, २; ६, १०^१; मैत्रि १, ४, १; ब्रवि
 १२; सुवा ५; श २४; विता ५,
 १२; गोड ६४; अवि १२.
 भूतात्मा(त्म-आख्या)>-
 ख्य- -ख्यः मैत्रि ३, २.
 १भूता(त-आ)दि^०- -दिः सुवा १;
 २; -दिम् सुवा ११^१; गी ९, १३;
 -देः सुवा १; साका २५; -दौ
 सुवा २.
 २भूता(त-आ)दि^०- -दि ते २, ३९
 भूतादि-पाद-व्यपदेशो-
 (सा-उ)पपत्ति- -त्तेः ब्रम् १, १,
 २६.
 भूता(त-आ)दिक- -कम् रापु
 ५, १.
 भूता(त-आ)धिपति- -तिः वृ ४,
 ४, २२; मैत्रि ७, ७.
 भूता(त-अ)र्थ-चिद्-रूप- -पम्
 अदि २.
 भूता(त-आ)वास- -सम् नाप ३,
 ४७.
 भूते(त-इषया)>षव- -ज्याः गी
 ९, २५.
 भूते(त-इ)न्द्रिय- -येषु योम् ३,
 १३.
 भूतेन्द्रिया(य-आ)मक-

-कम् योम् २, १८.
 भूते(त-इ)न्द्रिय-मनः-प्राण-
 रूप(>)पा- -पा सी १०.
 भूते(त-इ)न्द्रिया(य-अ)र्थ-
 -र्थान् मैत्रि ६, २८.
 भूते(त-ई)श- -शा शु १, ९;
 गी १०, १५.
 भूते(त-उ)त्सारण- -णम् वड
 ६, ४.
 १भूति^{१०}- -तिः पा ३, ६; गी १८,
 ७८; -त्यै तै १, ११, १; पा ३, ३;
 ९, ९.
 भूति-क(र)>री- -री वृजा ६,
 १२.
 भूति-काम- -मः सुं ३, १, १०;
 -मैः गोपू २४.
 भूति-मत्- -मताम् पा ३, ६;
 -मान् वपू १, ५; ३, २.
 भूति-योग- -गे सांम् ४, ३२.
 २भूति^०- -तये पा ३, ३.
 २भूति^{११}- -तिः वृजा १, १९^{१०}; ६,
 १२; -तिम् शि ५, २२.
 भूति-भूयित-विग्रह- -हम् म
 २, २९.
 भूति-रक्षाक्ष-भरण- -णः वि ९.
 भूति-रूप- -पम् शि ५, २.
 भूति-रुष्ट- -ष्टम् शि ५, ५.
 भूत्या ऐ २, ४^१; छा ३, ६-१०, ३;
 ५, १०, ५^१; ६^१; ८, ८, २^१; वृ १,
 १, २; ५, ८-१०; २१; २, ५, १८;
 ३, ३, २; ४, १, २-७; ३, ७; ४,
 २३; ५, १२, १^१; ६, २, २; ३, १;
 गी २, २९; मैत्रि ६, ९; जा ४^१;
 अशि ४, ११; वी १, २; वृजा
 ३, ५; भूत्या-भूत्या गी ८, १९

√भू(लाभे), भवते मैत्रि ६, ३५^{१०}.
 १-३भू- √भू(वधा.) द.
 भूम^०- -मः अशि ६, ९; -माय मना
 २, ६७^१.
 भूमन्- -मा छां ७, २३, १^१; २४,
 १^१; ते ३, ५१; शु १, १८^१; ब्रस १,
 ३, ८; -मानम् छां १, ५, ४; ७,
 २३, १; सी २, ११; -म्नः ब्रम्
 ३, ३, ५७; -ञ्जि या २, ३.
 भूम-ता- -ताम् महा ५, ६०.
 भूमा(म-आ)काश-स्वरूप-
 भूमाकाशस्वरूप-वत्-
 -वान् ते ३, १६^१.
 भूमा(म-आ)धिपति- -तिः शु १, १८^१.
 भूमा(म-आ)नन्द-
 भूमानन्द-मय- -यः ते ३, ३८.
 भूमानन्द-स्वरूप- -पः ते ३,
 १३.
 भूमि^०- -मयः सार २३३ : ७;
 २४६; ३; -मिः वृ ५, १४, १;
 कै २, ४; मना १, ८^{१०} १५^{१०};
 वृजा ६, १२; वृ ५, १०; ते २,
 ३; ५, ३६; ७६; १०१; १योत
 ८४; वित्रा २, ४; अता १२;
 १संन्या २, ९९; सू १२; रजा
 ३, १; ग ६; गोपू २९; गोड
 १०^१; इ ११ : १७^{१०}; नापू १,
 ७; य ६^{१०}; सार २५४ : २३;
 २७१ : १२; १८; सु २९; ६^{१०};
 गा १; मव १, २३; वड ३, ५०;
 गी ७, ४; -मिम् ३, १४^{१०};
 सुवा १^{१०}; १योत ५५; पै ३, १;
 महा ५, ३६; अलि ४०; जा ८,
 २; शि ३, २; ७, ५४; यो ७;
 -मिषु सार २८८ : ७; योम् ३, ६;

a) राहृन् °त्माशयः इति अल्पा. । b) तस. । c) मत्. । d) = ऐध्व- । e) फर्तिर इत् (वेद-
 पाटी. = १भूति-). । f) = भ्रमन्- । g) 'भवतः' इति मुग. यनि. तोषः द. । h) = भूपन्- (वेद. 111v. = भूमि-
 311v. नैव. <मौम-). । i) तैषाया १०, ६७ । j) = वहु- । वैप १ यद. । k) °कार° इति अल्पा. । l) वैप १ यद. ।
 m) तैषा १०, १, ८ । n) पा. १ [व. नाडी., १C.; वैद. भा. सा. (तैषा १०, १, १५) 'तृजे भूमिः' इति ग. इति स्वतः
 पर्वतु वोजदी). । o) °मिम् इति मुग. यनि. तोषः द. । p) अ १०, ९०, १ । q) पा. १ °भिः इति तोषः द. (द. उम.) ।

-मे: क १, १, २३; त्रिवि८, २; त्रि
५१^१; पा २, ५; सौ मैत्रि६, २७;
आहृ२; छ: अना १८^१; ते६, १७;
नाप छ, १७; त्रिमा २, ४१^१; ४५^१;
अता ६; सार १, ७; सारू छ, १९;
पप छ १८: २३; अक्ष १, १; १०;
अक्षि छ०; रुजा १, १; २; रह
१६; प्रा १, १; गोउ १०; छ २५;
या २, ४; वरा ५, ६१; इ १२ :
२२; १७: २०; सार २३७: १२;
शि २, ३; ७, ४७; गी २, ८;
न्याम् मना १, १९^१; २, ३६^१;
जाद ३, १०; गोउ १६; २०; २६;
वरा छ, १६; सार २७१: २३;
२७२: २; नौ १, २.

शौम- भस् वस् २, ४, २१.

२शौम^१-

भौमा(भ-अ)श्विती^१-

-न्याम् दे २२.

भूमि(क>)का- का महा ५, ३३;
अक्ष ५, ८१; ८४; ८५; ८९;
अक्षि २७; २९; वरा छ, १^१; ९;
५, ७४; का: महा ५, ४३; योशि
१, १२९; कानाम् महा ५, २६;
४३; काय् अक्षि ९; १९; २८;
३०; ३१; ३३; ३५; ३७;
कायाम् अक्षि ३७; कासु महा
५, ४२.

भूमिका-त्रितय- यम् अक्षि
३२.

भूमिकत्रितय(य-अ)भ्या-
स- मात् महा ५, ३०; अक्षि
३०; वरा छ, ६.
भूमिका-द्वय-विन्यास- स्वात्
शि छ, २०.

भूमिका-पञ्चका(क-अ)भ्यास-
-सात् महा ५, ३२; वरा छ, ८.
भूमिका-वत्- -वान् अक्षि १०.
भूमिका-सप्तक- -कम् महा ५,
३९; -कात् महा ५, २३.

भूमि-त्व- -स्वम् मैत्रि ६, २७.
भूमि-त्याग- -गा: १योत ५७.

भूमि-त्रय- -येषु वरा छ, १.
भूमि-पञ्च- -ञ्चम् गोउ ५१.

भूमि-मोदित-मात्रो[?ना'(य-अ)]
न्तर-अमृता(त-अ)ह्र(रक>-
रिका- -का अक्षि २७.

भूमि-मुष्ण- -ष्ण: छां ३, १५, १६.
भूमि-भाग- -गो जाद ८, २; शि छ,
६३; ६, १०५

भूमि-भेदा(द-अ)भेद-युत- -तम्
वरा छ, ११.

भूमि-रचित- -तम् सार २६८: ३^b.
भूमि-विन्यस्त-मस्तक- -क: शि
७, ५.

भूमि-शाश्विन्- -वी सार छ, ३.
भूमि-पदक-चिरा(र-अ)भ्यास-
-सात् महा ५, ३४.

भूमि-संविद्- -वित् महा ५, १५१.
भूमि-स्थ- -स्थम् शि २, ४.

भूम्य(मि-अ)भ्रम:-परमाणु-
-ण्वाम् शि ६, ११०.

भूम्या(मि-अ)दि-लोक^१- -कम्
मुद्र २.

भूयस्^१- -य: ई ९; १२; क १, १, १६;
३, ८; प्र १, २; छां ३, ११, ६^१;
५, १०, ९; ६, ५, ४; ६, ५; ८, ७;
९, ४; १०-१५, ३; ७, १, ५^१; २,
२^१; ३, १; २^१; ४, ३^१; ५, १^१;
६-११, १; २^१; १२, २^१; १२, १;

२^१; १४, २^१; ८, ९, ३; १०, ४; वृ
१, २, ६; ४; १७; छ, ४, १०६^१;
छे १, १०; १३; ५, ३; ६, ३; मैत्रि
६, ९; अना ३९^१; वृजा २, १५;
सुवा छ; मन्त्रि १८; ध्या ५२;
नाप ३, २७; ६, ८, ९, १; त्रिमा २,
१६२; योचू १६; ९५; ९८; शां
१, ७, १; महा २, ४०; ३, १२; ५,
२१; २६; ११७; १४३; १८२; ६,
४; ६०; अक्ष छ, ६१; ६९; ५,
१८; ऊं २२; मिता १, ७२^१; ७२;
सौ १, २; २, १३; पा १, ४; ६;
शि छ, २८; ६, २४८; २५१; ७,
१०८; सिशि ३६१: ३; हे २;
छ; यु६छ; चू १८; भव २, ३७;
अस् ३, २, २२; गी २, २०; ६,
४३; ७, २; १०, १; १०; -या-य:
सार २५४: १३; -यसा वृ १, २,
२६; -यसे ऋषि ३०; -यांस:
मना २, ७८^१; -यान् छां ७, ४,
१^m; १२, १; १५, १; वृ छ, ४,
२२; कौ ३, ९.

भूयसी- -सी छां ७, २, १; १४,
१; -यस्य: छां ७, १०, १.

भूयस-स्व- -स्वाव् वस् ३, १, २;
३, ५२.

भूयो-जन्म-विनिर्मुक्त- -क्तम् अक्ष
छ, १७; मु २, २, ३४.

भूयो-जन्मा(न्म-अ)ह्र- -विर्वाजि-
(त>)वा- -त्ता १संवा २, ४३

भूयो-भृति^०- -स्यै पा १, ६.

भूयिष्ठ, छा^१- -ष्टम् छां ६, २, ४; -छा:
मना २, ७८^१०; -ष्टाम् ई १८;
वृ ५, १५, १९^१; -छे १संवा २,
७३.

a) 'भूस्त्रीः' इति निशा. अख्या. (वृ. उम.) च मनि. सु-शोषी (वृ. तान्त्रि.) । b) 'मिमागे इति आन. ।

c) 'पादौ' इति निशा. अख्या. संटि. । d) तैश्चा १०, १, १ । e) तैश्चा १०, ३०, १ । f) निशा. यनि. शोषः द्र. ।

g) 'मिमुं' इति निशा. । h) पा. १ नाप. पदेन स. द. (वृ. सस्थ. वि. पप्ररागमनिगणालम्बित-). । i) वैपश् यद्र. ।

j) वा. किवि. भवति । k) मा छ०, १२ । l) तैश्चा १०, ६२, १ । m) 'भूतान्' इति निशा. । n) उप. = १भृति- ।

o) तैश्चा १०, ६२, १^१ । p) श्र १, १८९, १ ।

भूर(>): १) तै १, ५, ११; २) ३; ६, ११;
छां २, २३, २; ३, १५, ३, ५; ४,
१७, ३; ४; वृ ५, ५, ३; ४; द; ३,
३; ६; ४, २५; मै ५, ५; मैत्रि
६, ५; जा ६; मना २, ३; अशि
२, ९; वृप् ४, ११; शु १, १८.

भूः-पति-

भूः-पति-स्व-स्वम् वप् १, ६.

भूः-पुरुष-यः सूता ४, १०?

भूर-धादि-द्वयः तै ५, ८१; यो ३,
२२.

भूरादि-चतुर्दश-भुवन-
-नानाम् सी १७.

भूर-भुवः-सुवः-पुरुषा(प-आ)-
द्य-धैः सूता ४, १०.

भूर-भुवः-स्वः-पति-०ते वप्
१, ३.

भूर-भुवः-स्वर-भादि-दीनाम्
भ २, ५.

भूर-भुवः-स्वर-इति-व्याहृति-
रु(प>)पा-पा गार ४०७:२.

भूर-भुवस्-स्वर-लोक-समासीन-
तत्-स्व-पद-शोषना(न-आ)-
थं-थंम् लां २१३:४.

भूर-भूति^१-तये पा ५, ६.

भूर-लोक^१-कः काला १३; नाद
३; नाप ५, १; -कम् वृजा ८, ४,
वृप् ५, १६; वड ५, ११; -काः,
-केषु सुषा १०.

भूर्लोक-भुवलोक-कौ नाप
५, १.

भूर्लोक-भुवलोक-स्वलोक-मह-
लोक-जनोलोक-तपोलोक-सत्य-

लोक^१-कम् आह १^१.

भूरि^१-रि^१ तै १, ४, १; नाप ४, ३८^१;
व ४६०:११^१; भव १, २७.

भूरि-मङ्ग-ङ्गम्यः महा २, १३.

भूरि-वारि-संप्रदाय-यः मध ४९:१.

भूर्ज^१-

भूर्ज-पत्र-त्रे त्रिता ३, १९.

√भूप> भूपि, भूपयन्ति सार २६३:
१५; भूपयेत् शि ६, १५२; काम
१८.

भूपण-णम् वसू १; ते ६, ७६;
-णानि सार २२३:१२; २८४:
६; -णैः सार २४४:११;

२६७:६.

भूपण-(ञ>)जा^१-जा सार
२६३:८.

भूपण-भू(पि>)पी-प्या सार
२२३:१२.

भूपण-स्थान-नम् सार
२८७:२.

*भूपया-

*भूपयां/कृ, भूपयांक्तुः सार
२५४:५.

भूपार^१-

भूपार-व(त>)ती-

भूपारवत्या(ती-आ)दि-द्वयः
सार २७०:११.

भूपित,ता-तः त्रिवि^१, १२; -तम्
जाद ४, ४; सार २६६:२; -ता
सार २४४:१०; -ताः सार २६७:
६; -तानि सार २६३:१४; -ते
महा ५, १६७.

√भू> भूपरि, भरते धे १, ८; नाप

९, ७; भव २, ५.

विभर्ति ऐ ४, १; ३; वृ १, ६,
१-३; श्रे ५, २; मना १, २४^१; मै

५, १; मैत्रि ६, १; त्रिता २, ७९;
निर्वा २९८:१०^१; शां २, १;

योशि ४, ६^१; त्रि १०; रुजा २,
१४; पा ८, १; ४; सु २४४:३;

शु ७०; भव २, ४१; नी १५,
१७; विभर्षि धे ३, ६९^१; पा ७,
२; ८, ९; नी १, ५९^१; व ४६१:

१९^१; विभर्मि दे १९^१; वा १२;
अभिभः वृ १, २, ४; विभृयाव

१संन्या २, १०; भ २, २; रुजा
१, १०^१; १८; शा ७; का ६;

वृष ८५:८; सु २९४:१३; १४.
सुभूपति वृ १, ३, १८^१.

विभ्रत्-भ्रत् महा १, १; सूता ३,
७; सु २९४:५९^१; -भ्रतः लि
३०९:८९^१.

विभ्रती-तीम् व ४२७:१२;
१६.

विभ्रान-णम् द १०; ग ११.
भर^१-रे-रे आर्षे ९:१७.

भर-क्षम-मम् शि ६, १४५.
भर(ण>)णी^१-णयाम् इ १९:
१; -ण्ये व ४३८:१.

१भरत्^१-
भरन्ती-स्यै पा १, ५.

२भरत्^१-
भरद्-वाज^१-जः वृ २, २, ४;
गद १; सर २, १; आर्षे ७:२१; इ
१८:२०; -जाय गद १; इ १८:
२०.

भ) =व्याहृतिविशेष- वा लोकविशेष- वा । वैपश् यद. । b) तैश्चा १०,३,१^१ । c) ०पमु^१ इति सुषा. यनि.

शोषः द. । d) उप. =१भूति- । o) समाहारे द्वय. । f) अथ्या. असगरतः पा. । g) वैपश् यद. । h) वा. त्रिवि. द. ।

i) तैश्चा ७,४,१ । j) श्र १०,८३,७ । k) व्यु. ? =भोजपत्र-इह- । l) तैश्चा १०,१,२ । m) 'विभ्रति' इति निता.,

'विभूति' इति घञ्या. सुगा. यनि. मु-शोषौ । n) 'भासंति' इति निवा. संटि. । o) मा १६,३ । p) श्र १०,८४,६ ।

q) श्र १०, १२५, १ । r) 'सुभूपति' इति निता. यनि. शोषः द. । s) श्र ९,९६,१९ । t) श्र १०,५७,६ ।

u) भार. (पा ३,३,५७) । v) =नक्षत्रविशेष- । वैपश् यद. । w) शरन्नत् भरत्- इति । x) विप. अन्तोदात्तम्

(वैपश् यद.) । y) =श्रुतिविशेष- ।

भारद्वाज¹ - -०ज प्र ६, १;
 सिशि ३८०:३; ३८३:१; १०;
 सि १, ३; -ज: प्र १, १; ६, १;
 मुं १, १, २; वृ २, ६, २; ३;
 ४, १, ५; ६, ३; राउ १,
 २; ४-५, १; ता १, २; ३, १;
 सिशि ३८०:१; सि १, १; व
 ४६५:२; -जम् गार ४०७:
 १०; -जावृ वृ २, ६, २; ३; ४,
 ६, ३; -जाय मुं १, १, २; व
 ४६५:२.
 भारद्वाजी-
 भारद्वाजी-पुत्र-
 -त्रा; -त्रावृ वृ ५, १; २.
 भारद्वाज-रूप-
 भारद्वाजरूपिन्-
 -विणे सार २६१: ६.
 १भरत^{1b} -त: राउ२, २; ता२, ३;
 ३, ५; ८; -त्तम् रार १, ७; २,
 १०२; रापू ४, ३५; -ताव रार
 २, १०१.
 भरता(त-अ)भज- -०ज त्रिभि
 ७, ३४; रार २, ५३.
 भरता(त-अ)दि- -दिभि: रार
 २, ३७.
 भरता(त-अ)धस्- -ध: रापू ४,
 ३३.
 २भरत^{1c}-
 ३भरत^{1d} -ते नाद १२;
 सार २५४: ११.
 भरत-वक् सांस् ४, ८.
 ३भरत^{1e}-
 ४भरत^{1f} -०त्त गी १, २४;
 २, १०; १४; १८; २८; ३०; ३,
 २५; ४, ७; ४९; ७, २७; ११, ६;
 १३, २; ३३; १४, ३; ८-१०;

१५, ११; २०; १६, ३; १७, ३;
 १८, ६२.
 भरत(त-अ)र्षभ- -०भ गी ३,
 ४१; ७, ११; १६; ८, २३; १३,
 २६; १४, १२; १८, ३६.
 भरत-श्रेष्ठ- -०ष्ठ गी १७, १२.
 भरत-सत्तम- -०त्तम गी १८,
 ४.
 भरत- -तां वृ १, ३, १८; गी ७, १८;
 १३, २२.
 भार- -र: महा ३, १५^{1g}; -रम् इ
 १३: १७.
 भार-पीडित- -ता: इ १३: १८.
 भारा(र-अ)ष्ययन-संगम^{1h}-
 -मम् इ १४: ५.
 भार्य- -र्यान् वृ १, ३, १८; १संन्या
 १, १; जाद १, १३; इ १८: १४;
 रा ४२४: २३; कधु १, १; -र्येभ्य:
 वृ १, ३, १८¹ⁱ.
 भार्या^{1j} -र्यया कुंउ; -र्या वृ ३,
 ७, १; वृजा ६, १; १योत १३२^{1k};
 २योत १, ४; इ १६: २२; १८:
 १५; १७; स्वद २: २; ३; -र्याया:
 रा ४२५: ५; -र्यायाम् रा ४२४:
 १२; -र्याये कौ १, ६; -र्ये वृ ४,
 ५, १.
 भार्या-जगन्-मोहन-
 चक्र- -के रा ४२३: १२; २०,
 ४२४: १; २: ५; ६; ९; १०; १३;
 ४२५: ३; ७; ८; १९.
 भृत-
 भृत-क- -क: नाप ३, ६१.
 भृतका(र-अ)प्यापक- -क:
 नाप ३, १३; १संन्या २, ३^{1l}; इ
 १७: ८.
 भृत्य- -त्य: महा ५, ७९; -त्यानाम्

शि ६, १७३; -त्यै: शि २, ३०;
 ४, २५; ५३; ६, १२७.
 भृत्य-द्वार- -द्वारा सांस् ५,
 ११५^{1m}.
 भृत्य-वक् सांस् ३, ६१.
 भृत्य-वर्ग- -गोपु सांस् २, ४०.
 भृगु¹ⁿ -गु: तै ३, १, १; गी १०, २५;
 -गुणाम् व ४६४: १४^{1o}; -गुत्
 २प्र ३७: ३; -गो: वपू १, ५.
 भार्गव^{1p} -०व वपू १, ५; -व: प्र
 १-२, १; सर २, ७; ८; -वम् गार
 ४०७: ११; -वा: मन्त्रि १०;
 चू १०.
 भार्गवी^{1q} -धी तै ३, ६, १.
 भृगु-निचृद्गायत्री-श्री- -श्रिय:
 सौ १, २.
 भृगु-पुण्या(ष्य-अ)दि^{1r} -दिभि:
 सौ ३७.
 भृगु-पुत्र- -त्र: वपू २, ३; ३, १, २;
 -त्रम् वपू १, ४.
 भृगु-विस्तर- -रं मन्त्रि ११^{1s}?; चू
 ११.
 भृगु(गु-उ)त्तम- -मा: मन्त्रि १०;
 चू १०.
 भृगु(गु-अ)त्रिरस्-
 भृग्वह्नो-मय- -यम् २प्र
 ३७: २.
 भृग्वह्नो-विद्- -विद्भ्य: २प्र
 ३६: ११.
 भृङ्ग^{1t} -ङ्ग: नाद ४२.
 भृङ्ग-रव- -रवम् कामे १६.
 भृङ्ग-सूनु- -नु: ते ६, ८६; -नुना
 महा ४, ६५.
 भृङ्गी/भृ
 भृङ्गी-भृवा^{1u} कामे १६.
 √भृज्, > भर्जि, भर्जति मै ५, ७.

a) 'भरद्वाजः' इति श्रवणा. | b) = रामाज- | c) = जडभरत- | d) = भारतेदेश- | e) = नृपविशेष-
 तत्प्रवर्तितज्ञानियुक्तविशेष- | f) = अर्जुन- | g) सङ्ख 'भारम्' इति श्रवणा. | h) समाहारे द्वय. | i) 'भार्याः' इति
 श्रान. | j) 'काः' इत्यपि निसा. | k) 'श्ववर्गद्वारं' इत्यपि पाठे. | l) वैपरी यद. | m) तैश्चा ४, ३८, १ | n) उ. छ. |
 o) बहुवि¹ इति निसा. यनि. दोषः द्र. (तु. श्रान.) | p) व्यु. ? = १भरत- | q) पा ७, १, ३८ |

भजयति मैत्रि ६, ७.
 भर्गो- -र्गो मै ५, ७; ५^१; मैत्रि ६,
 ७; ५^१; ३५^१.
 भर्गो-मय- -यः सावि १०^१.
 भर्गा(र्ग-आख्या >) ह्य- -ह्यः
 मै ५, ७; मैत्रि ६, ७.
 भर्गस्- -र्गोः वृ ६, ३, ६५^०; मै ५,
 ७^१; मैत्रि ६, ७^१; ३४^१; मना
 २, ३५^१; त्रिवि ७, ३९^१; ४४;
 स ६५^१; सावि १०^१; ५^१; त्रिता १,
 ५५^१; २४; २५; २७^१; ४४^१; ५^१;
 ५३^१; पारा २५^१; ५५^१; गार
 ४०५; १३; १८^१; व ४२२; १८;
 ४५७; ९५^१.
 भर्गो-रूप- -रूपं त्रिता १, २६.
 भर्जित- -तम् शि ६, २३.
 भृत्- -भृत्य- √भृ द्र.
 भृथा^१- -थाम् छां ७, १५, २; वृजा १,
 १; ४-५, ८; जाद ६, ४३; या
 २, २१; सु २, २, ९.
 √*भृप् (<भ्रस्ज्)
 भृष्ट- -ष्टम् शि ६, २४; ३२.
 भृष्ट-बीज-समुत्पन्न- -वृद्धि-
 -द्धिः ते ६, १४.
 ?भृष्ट-बीजो(ज-उ)पमा^१- -मा
 १संन्या २, ४३; अल ४, ५२.
 √*भृ(दीप्तौ) उमा- -दि. द्र.
 भेका^१- -कः मै १, ७; मैत्रि १, ४; मैत्रे
 १, २.
 भेकी-
 भेकी-वल् सांस् ४, १६.
 भेतव्य- √भो द्र.
 भेद्- √भिद् द्र.
 भे(रि >) री^१- -र्यो गी १, १३.
 भेरी-नाद- -दः हं १६^१.
 भेरी-वाद्- -वद् गी २, ८.

भेषज- भिपज्- द्र.
 भैं^१ लां २१६ : १७.
 भैत्- , भैक्ष्य- √भिद् द्र.
 भैरव- √भो द्र.
 भैपज्य- भिपज्- द्र.
 भो- *१भव- द्र.
 भोक्तव्य- , भोक्तृ, भोक्त्र, १-२भोग-
 , भोग्य- , भोजन- , भोजनीय- ,
 भोजयान- , भोजयितृ- , भोज-
 वित्वा, भोज्य- √भुज् द्र.
 भोस्- *भवस्- द्र
 भौतिक- , १-२भौम- √भू (*वधा.) द्र.
 भ्रं^१ रार ३, १; राप् ४, ५०^१.
 √भ्रंश्, भ्रंश-भ्रंश हंपो १३.
 √भ्रम् (*वधा.), > भ्रामि, ब्रंभ्रम्,
 भ्रमते त्रिवार, ६१; भ्रमतेतराम्
 यो १, ७२; भ्रमति ध्या ५०;
 त्रिवार, ६१; योच् १४; शां १, ४^१;
 महा ३, २४; गी १, ३०; भ्रमन्ते
 योच् २६; भ्रमन्ति मैत्रे २, २५;
 त्रिवि ६, ७; १.
 भ्रामयामि त्रिवार, ६०; भ्रामय-
 भ्रामय लां २१५; २०; व ४५७;
 २२; भ्रामयेत् योशि ६, ३५; शि
 ६, १४३; १५४.
 भ्राम्यते धे १, ६; ६, १; प्रवि
 १८; नाप ९, ५; भव २, ४.
 ब्रंभ्रममाण- -णम् आर्थे ८ : ७.
 भ्रम- -मः ते ६, १६; अल १, १३^१;
 १५; पित्र ५, ५; -मम् महा ४,
 १; -माः सुद्र ४; -मात् नाद
 २६; -मे महा ६, २२.
 भ्रम-त्स (>) यो १, ८०.
 भ्रम-वासना-बल- -लात् त्रिवि
 ५, ४.

भ्रम-विधान्त-शकुनि- -निः पै
 २, ४२.
 भ्रमा(म-आ)त्मक- -कम् महा
 ४, ६५.
 भ्रमत्- -मत् वृ ६, ३, ४; -मता
 महा २, ३५; -मन्तः १योत १३४;
 २योत १, ५; वउ ४, २९.
 भ्रमन्ती- -न्तीः सार २५९; १२.
 १भ्रम^१- -०२ सार २२०; ६; -रः
 सार २२६; ६-१०; १४; २३;
 -राः सार २२२; १६; २०
 २२६; १२; २५४; ३.
 भ्रमर-कीट-
 भ्रमरकीट-कार्य- -ज्येण क
 २५.
 भ्रमरकीट-न्याय- -न्येन नाप
 ३, ८६; ५, ३९.
 भ्रमरकीटन्याय-वल् नाप
 ५-६, १; १संन्या २, ५९.
 भ्रमरकीट-वल् सु १, १, २४.
 भ्रमर-चातुर्य- -र्यम् सार २२६;
 १३.
 भ्रमर-पिक-शुक-सारस-ईस-
 श्रेणि- -णयः सार २५९; २.
 भ्रमर-रूप- -रणेण सार २२७;
 २०.
 भ्रमर-सृष्टि- -ष्टिः योशि ६, १९.
 २भ्रम (>) रा^१-
 भ्रमरा(र-भ्र)म्या^१- -०भ्यं व
 ४५७; २१.
 भ्रमरिका^१- -का पी ४२२; ९.
 भ्रान्त- -न्तम् महा ६, ९; सु २,
 २, ६०; व ४६६; १; -न्ताः वरा
 २, ५७; तार २३१; १७; २३५;
 ११; -न्तानाम् सांस् २, २३;
 -न्तेः जाद १०, ४.

a) पैप १ द्र. । b) अस्तगतः पा. । c) श्र ३, ६२, १० । d) व्यु. ? । e) धा. क्रि. द्र. । f) भ्रं इति
 निता. अन्वा. पा. यनि. शोषः द्र. । g) व्यु. ? = १मपृक्- । h) व्यु. ? = नापविशेष- । i) श्रुद्गना इति निता. ।
 j) = बीजमन्त्रविशेष- । k) 'भृ' इति निता. संटि., अल. । l) सपतेत् इति अन्व्या. । m) धा. अर्थः ? = मृद्र- ।
 n) धा. अर्थः ? = देरीविशेष- ।

भ्रान्त-चित्त- -सैः सार २३१ः
१७.

भ्रान्ति- -न्तिः ते ४,२६; ५,४२;
अध्या ५७; यो १,६०; -न्तिम्
महा २,७२; ६,१२; -न्तिः अक्ष
५,७७; -न्त्या नाप ६,१४; महा
६,९; १आ १६; अक्ष ५,७६;
जाद १०, २.

भ्रान्ति-कारण- -णम् अध्या २४.
भ्रान्ति-हरण- -णम् निर्वा २९८ः
१३.

भ्राम्यन्- -यन् गी १८, ६१.

भ्राम्यन् वृत् ६,२४.

भ्राम्यन्- -यन् मैत्रि ७,८.

भ्राम्यमाण- -णम् मै ४, २; मैत्रि
४,२.

भ्राम्यन् रार ३, १.

भ्रस्ज्- -यन् द्र.

भ्रज्, भ्रजते ये २,१४; ५,४; गु
६४.

भ्रजमान,ना- -न्म् शु २, ५;

त्रिवि ७,५७; सार २२२:१०;

शु २२३:१६७; -नाः सार

२३३:९; २८३:१६; -नेषु सुं

१,२,५.

भ्रजस्- -जः मनार, ३५७; ४४७;

-जसा मना १,१७.

भ्रजिष्यु- -ष्यन्ते सू १२.

भ्रान्तान् इ १७:१५

भ्रातृ- -तरः छां ८,२,३; -तरम् छां

७,१५,२; -ता छां ७, १५,१;

सुवा ६; ते २,१३; राधा १,२;

-तृन् आह १; गी १,२६.

भ्रातृ-लोक- -कैव छां ८,२,३

भ्रातृलोक-काम- -मः छां ८,२,३.

भ्रातृ-वेर- -यम् वृजा ६,१.

भ्रातृण्य- -यः वृ १,३,७; -यम्

गार ४०७:८; -भ्याः तै ३,

१०,४; -भ्यान् वृ २,२,१; शौ

५२:३; -भ्येभ्यः अण्य ६.

भ्रातृ-हन्- -हा छां ७,१५,२;३.

भ्रान्त- अभ्रम् द.

भ्रू- -भ्रुवः शां १, ७,४८; भ्रुवोः

जा २; काला १२; नाद ४; ध्या

३९; ८०; त्रिमा २,१३२; १थोत

२५; २थोत २, ५; योच् ५२;

२३; राउ ३, १; रार २, २३;

मवि ७०; ७१; ७४; ८०; योशि

१, १७५; १७८; ५, ११; १५;

४०; १संन्या २, १०; वा ३०;

यो १, ७; ६९; जाद ४, ४८; ६;

२७; ७, १२; जाबा २०; योरा

१५; गी ५, २७; ८, १०; भ्रुवो

वृ ६, ४, ५; शां १, ७, १७; गु

१०.

भ्रू-चक्र- -क्रम सौ ३, १; योरा १५.

भ्रू-दहर- -रात् अता २.

भ्रू-मध्य- -म्यम् योशि ५, २२; पै

२, ३६; -ध्यात् योत ९८; -ध्वे

वृत् ३, ५; ध्या ४०; योच् ५; ५;

मं १, २, ४; रार २, ११; शां १, ३,

७, ७, ३; ४३; ५२; यो २, ४६.

भ्रूमध्य-दृष्टि- -ष्टिः १थोत ११८.

भ्रूमध्य-निलय- -यः योशि ५,

३४.

भ्रूमध्य-संस्थित- -तम् त्रिमा

२, १५०.

भ्रूमध्या(ध्व-अ)न्त- -न्तः जाद

८, ४.

भ्रूमध्या(ध्व-अ)वधि- -धिः

यो २, ३३.

भ्रू-मध्यम- -मं १थोत २५.

भ्रू-युगा-मध्य-विल- -ले मं १,

३, ३; अता ११.

भ्रू-युगा(ग-अ)तीत- -तम् मं १,

३, १; अता १०.

भ्रू-युगम- -यम् अता ११.

भ्रू^१ सार २३२:९; ११.

भ्रू^२

भ्रूण-हत्या- -त्यया कौ ३, १; -त्याम्

मना २, ३५; ६४; वृत् ५,

१३; राउ १, २; वृजा ८, ३; कालि

४०२:१८; विद्या १.

भ्रूण-हन्- -हा वृ ४, ३, २२; मना

१, १५; शा २६.

भ्रू^३ तां २१५:१६.

भ्रू^४ व ४२७:२२.

म

म^१

म-कार- -रः मां ८; ११; गी

१, २, ३; मैत्रि ३, ११; ना ४; अ

१; वृत् २, २; वृत् २, ७; ३, ४;

५, ३, ७, ७; काला १६; नाद १;

ध्या १३; त्रिवि ६; आवो १;

नाप ८, १; योच् ७४; ७५;

७६; रार ५, ६; ११; १२; राउ

१, २; वा १७; अक्षि ४४; त्रिता

४, २६; जाद ६, ९; ना १, २;

२, १; जाबा २४; तु २; ८; १म

३१:१०; १३; २म ३५:१३

१५; नापू १, १०; स ३७९:

५; सिशि ३८२:११; १२; गु

८२; विद्या १; -न्म् वृत् ३, ९;

a) पा ७, १, ३८ । b) 'जं बं' इति अख्या. । c) तैत्रा ३, १२, ३, ४ । d) तैत्रा १०, ३५ । e) तैसं ३, ३, १, २ । f) तैत्रा १०, १, १ । g) पा? 'भ्रातृ' इति शोधः द्र. । h) वैप १ यद्र. । i) पा ४, १, १४५ । वैप १ यद्र. । j) 'भ्रुवोः' इति शोधः द्र. । k) 'वोः मं' इति निता, आन. । l) 'ध्यम्' इति अख्या. संदि. । m) 'ध्यांशः' इति अख्या. संदि. । n) =बीजमन्त्रविशेष- । o) तैत्रा १०, ४९, १ । p) 'त्या' इति तैत्राया १०, ६४ । q) तैत्रा १०, १, १५ । r) =र्ष- । s) 'रः' इति आन. । t) 'मं' इति निता. ।

-स्य रा१,७;-रे ध्या१२; त्रिवि
७०; ७२; १योत १३९; २योत
२, १; योचू ७८; पप ४१९ :
२९; २प्र ३४ : १९; -रेण अना
४; वृत् ५, ३; ७, ७; ८; १०;
जाद ६, ५.

मकार-तुरीयां(य-अंश)>-
शा- -शा वरा ४, १^०.

मकार-भाव- -वे गौ १, २१.

मकार-मूर्ति- -र्तिः शां १, ६.

मकारमूर्ति-ध्यान- -नेन

शां १, ६.

मकार-रूप- -पैः वृत् २, ७.

मकार-वाच्य- -च्यः ता ३,
३; ८.

मकार-श्रुति- -स्या २प्र
३३ : ४.

मकार-संभृत>ना- -ता
विद्या १.

मकार-स्थूलां(ल-अं)श- -शौ
वरा ४, १.

मकारां(र-अं)श- -शम् पप
४२० : ३.

मकारा(र-अ)क्षर-संभव-
-वः राउ २, २; गौउ ४३.

मकारा(र-अ)क्षर-संभूत-
-तः ता २, २.

मकारा(र-अ)र्ध- -धेन वृत्
७, २.

मपञ्चक- -केन काम १९.

मपञ्चक-लाभ- -भे २कौल
१०^१.

मं आप ३९६:१; व ४३५:२३;
हंपो ११.

मं-कार- -०र अक्ष ५.

मकर^१द- -रः गौ १०, ३१.

मकर-कुण्डल- -लः राधा ३, १०.

मकर-निधि^१- -धये त्रिवि ७, ४३.

मकर-मुख- -०ख लां २१६ : १३.

मकरा(र-आ)कृति-कुण्डल- -लौ
सार २६५ : १९.

मकरा(र-आ)रूढ- -ढः व ४४० :
१६.

मकरन्द^०- -न्दम् नाद ४२.

मकुट^१-

मकुटा(ट-आ)भरणा(ण-आ)दि-
-दिषु शि ६, ९६.

मक्षिक,का^१- -कः वृजा ६, १^३; -का
अद्वै ६५; -काः प्र २, ४; व १;

-कायाः वृ ३, ३, २.

माक्षी(क>)का^१ब- -का व्र १.

माक्षीक-वत् व्र १^१.

मख^१-

मख-रु(प>)पा- -पा सी १५^१.

मघ^१- -घः मैत्रि ७, १.

२मघ^१-

मघ-वत्- -०वत् के ३, ११; छां
८, ९, २; ३; १०, ३; ४; ११, २;

३; १२, १; मना १, १९^म; कौ
२, ११९^०; ४६३ : २३९^म;

-वान् प्र २, ५; छां ८, ११, ३.

मघ-वन्- -वा मन १, ११९^०;

सुवा ६.

मघा^१प- -घाय(१वै^०) व ४३८ : ३.

मा(प>)घी^१- -घ्याम् रा
४२४ : १०.

मघा(प-आ)घ- -घम् मैत्रि ६,
१४^१.

मङ्कु^० गोपू १३.

१मङ्कल^१- -लम् शि ७, ८०; ८१;
-लानि शि ७, ८९.

मङ्कल-प्र(द>)दा- -दा रा ४२३ :
१९; ४२४ : १५; ४२६ : २.

मङ्कला(ल-आ)चरण- -णम् सां
५, १.

२मङ्कल(ल>)ला^१- -ला त्रि ६.

√*मज्ज(<√मस्ज>)-मनि,मजते

सिदि ३८० : १२; मज्जन्ति क
१, २, ३; कौ १, ४; महा ५, ३५;
सार २५६ : १.

मझ,झा- -झः गर्ग ४; ते ४, ५७;

निरु २, ६; -झम् गोपू ४४; -झा

सार २८६ : १७; -झाः सार

२२५:१८; २३२:१८; २३९:

७; २४६ : ११; २५४ : १०;

२७२ : २२; २३; २७३ : १;

-झासु मार २७९ : १९^१.

मझ-वत् सांख ३, ५४.

मज्जन- -नम् सार २२८:३; २५५:
२१; २६४ : ८.

मज्जन-क्रिया- -याम् सार
२२८ : ३^१.

मज्जनक्रियो(था-उ)पयोग्य-

-नयाः सार २६४ : ७.

मज्जन-लीला- -लाम् सार
२८६ : १९.

मज्जन-व(त्>)सी^१- -ती सार
२६९ : ७.

मज्जनवत्या(ती-आ)दि-

-दयः सार २२४ : २२.

मज्जन-स्थान- -नम् सार २२४:
२१; २६४ : ४.

a) °वाः इति श्रुत्या. । b) °ब्रमला° इति पा.१ यनि. शोधः द्र. । c) =बीजमन्त्रविशेष- । d) =जलचर-
विशेष- । वै११ यद. । e) व्यु.१ =पुण्यरम- । f) व्यु.१ =सुकुट- । g) वै११ यद. । h) =ऊर्णनाभ- । i) °क्षि° इति
आन. । j) सु° इति निता. । k) =विप. । वै११ यद. । l) =भाप.(=ऐधर्व-). । वै११ यद. । m) ष्ट ८, ६१, १३ ।
n) ष्ट ३, ३६, १० । o) लैम १, ४, ४१, १ । p) व्यु.१ =नक्षत्रविशेष- । q) पा.१ यनि. शोधः द्र. ।
r) घाण्यम्° इति गात. । s) =मधु(=अव्य.) । वै११ यद. । t) व्यु.१ =रुत्याण- । u) व्यु.१ =आचारणदेवताविशेष- ।
v) पा.१ 'मझाः तु' इति शोधः द्र. । w) °ज° इति पा.१ यनि. शोधः द्र. ।

मञ्जना(न-अर्थ)- र्थम् सार
२२४: २२.
मञ्ज(न>)मा-व(त>)ती-
-ती सार २६४: ८.
मञ्ज(त>)न्ती-न्त्य: सार २५४: ४.
गञ्जमान(न>)ना- ना सार २८६:
६; -नाम् सार २४३: १४.
मञ्जविरवा सार २८६: २.
म(ञ्ज>)ञ्जा^{१०}-ञ्जा तै १, ७, १; छां
२, ११, १; ६, ५, ३; वृ ३, ९, २८,
३; गर्भ २; ते ४, २५; निरु १, ५;
वि १०.
मञ्जा-तस(>) गर्भ २६; निरु १, ५.
मञ्जा-शत- -तानि गर्भ ५.
मञ्जो(जा-उ)प(म>)मा- मा वृ
३, ९, २८, ३.
√मञ्च्
मञ्च्-ञ्च: सार २४५: १२.
मञ्च्-क- -कम् नाप ३, ७१;
१संन्या २, ८७.
मञ्च(रि>)री^{१०}-री शि २, ९; १२;
-या: शि २, १०.
मञ्जु^{१०}-
मञ्जु-का(न्त>)न्ता- न्ताम् व
४२७: ४.
मञ्जु-हा(स>)सा- सान् रा
४२४: २१.
मञ्जूपा^{१०}- पा: सार २८४: ५.
मटवी^१-
मटवी-हत- -तेषु छां १, १०, १.
√मट
मट^{१०}- -ट: मैत्रे २, १५६; निर्वा
२९८: १; म ४९: १४; -ठम्
१योट ३२; १संन्या २, ७०;
जाद ५, ४.
मठा(ठ-आ)काश- -श: जाद

१५५.
मणि^{१०}- गय: युवा १०; योशि १,
११८; सार २२२: १२; २३७:
२; १२; २५३: २३; २६२:
१३; २६६: १; २८०: १७; २८७:
२; -णि: सांस् २, ३५; -णिम्
चू ११; -णीनाम् सार २३३: ८;
९; २३९: ५; २५३: १०; २६४:
४; २८१: २०; -णे: योसू १, ४१;
-णौ ध्या ६६.
मणि-क^{१०}-
माणिक्य^{१०}- -क्यम् शि ६, ५६.
माणिक्य-वर्ण- -र्णम् ध्या
९३, ७.
मणि-कटक-वित्ति(त्र>)त्रा- -त्रा
सौ १, १^१.
मणि-क(ण>)णो^{१०}- -णयांम् राउ
३, ३.
मणिकर्णि(क>)का^{१०}- -काम्
योशि ६, ४१.
मणि-कुञ्ज-घटित- -तम् सार
२६५: २२.
मणि-कुण्डल- -ले इ १८: १२;
१६; १७.
मणि-वधित- -तम् सार २३९: १३.
मणि-गण- -णा: त्र २, ३; पत्र ३,
३; नाप ३, ५९; योशि १, ११९;
गो ७, ७; -णे सप्ता १, २८^१.
मणिगणा(ण-आ)कर- -रा:
सार २५८: १०.
मणि-गत- -तै: सार २, ३७.
मणि-गुण-वलय(य-आ)व- -वै:
व ४२७: ३.
मणि-प्रथि(त>)ता- -ता सार
२७१: २२.
मणि-वदित-हाटक-सचित-तारा-

जाल-शोभा- -भाम् सार
२४५: ४.
मणि-ज- -जम् शि ३, ९; ७, ७६.
मणिज-पाथेव- -वै: शि ३, ८.
मणि-जटित- -तानि सार २३३: १.
मणि-जशोखा- -न्खा: सार २७१:
२१; -न्खाभि: सार २३३: ८;
२३४: १; -स्वाम् सार २३९: ३.
मणिज्योखा(हा-अ)पाकृता-
(त-अ)न्धकार- -रै: सार २६२:
२०.
मणि-दन्त^{१०}- -न्तम् शि ६, ६६.
मणि-द्योतित- -ता. सार २६६: ५.
मणि-धनुम्- -नु: शि ७, ८२.
मणि-पीक्षा-कोवि(द>)दा^१-
-दा सार २६३: ५.
मणि-पीठ- -ठे रापा १, १३.
मणि-पुष्प- -प्यै: सार २७१: ३.
मणि-पूर^{१०}- -रम् यो ३, ९; ११.
मणिपूर-क^{१०}- -कम् हृद् ६; १५४९;
योचू १३; योशि १, १७२: ५, ९.
मणिपूरक-चक^{१०}- -कम् सौ
३, १.
मणि-प्र(ह्या>)ह्य- -ह्य: अना
३७.
मणि-श्रेष्ठ- -ष्ठै: सार २६६: १८.
मणि-बन्ध^{१०}- -न्ध: गु२१; -न्धयो:
वृजा ४, २८; ७, ८; भ २, ३;
सिशि ३८२: ५; -न्धे वृजा ४,
१४; १८; २९; त्रिवा २, १२३;
भ १, ६^१; हजा १, १६.
मणि-भूमि^{१०}- -मिषु सार २७४: ९.
मणिभूमि-क- -कम् शि ६, ४३.
मणि-भ्रू^{१०}- -भ्रुवौ सार २६५: ४.
मणि-मण्डप^{१०}- -पेन सार २२२:
१०.

a) व्यु: = पद्मघातु- । b) 'मञ्जः' इति आन., °जनायाः इति अख्या. । c) धा. अर्थः १ । d) व्युः! शक. <मञ्जु- इति । e) व्युः! । f) व्युः! = अशानि- । g) °ठम् इति अख्या. । h) महा° इति अख्या. संटि. । i) वैपरी यद्. । j) फा: १ अणु- > -णुम् इति शोधः द्र. (तु. मैत्रि ६, ३५; मन्त्रि १.) । k) मणिस्° इति आन. । l) °णिमकुटवि° इति अख्या. । m) = क्षेत्रविशेष- । n) °णसूत्रम् इति आन. । o) = शरीराहविशेष- । p) मलो. कत. ।

मणि-मण्डल- -लम् सार २२२:१.
 मणि-मय- -यम् सार २५३:२.
 मणिमय-भूमि- -मिम् सार
 २६९:१५.
 मणिमय-मुक्ता-फल- -लैः
 सार २४४:१७.
 मणिमय-सप्त-भूमिक- -कम्
 सार २७१:११.
 मणि-लता- -ता: सार २४२:५;
 २७१:३; -तानाम् सार २८२:
 ३; -ताभिः सार २३७:५;
 -तासु सार २२५:३.
 मणिलता-प्रथि(त>)ता- -ता
 सार २७१:२०.
 मणिलता(त-अ)न्तर- -रे सार
 २६४:१.
 मणिलता-युत- -तामि सार
 २२२:९.
 मणिलता-सुगन्धा(न्ध-आन्ध)>
 द्या- -व्या सार २६३:२१.
 मणि-वत् ध्या ४६; ४८; योचू ९;
 १२; सासू १,९६.
 मणि-विदुम-लता- -प्रथित- -ता:
 सार २२२:७.
 मणि-स्वम्भ- -म्भा: सार २२२:
 १०; २३९:१३; २८४:१०;
 -मैः सार २४२:६.
 मणित्तम्भा(म्भ-आ)कुल-
 -लम् सार २६२:३.
 मणि-हीरक-जास्य-विलक- -योनि-
 (त>)ता- -सा सार २४४:
 १२.
 मणि->)णी-नारह-प्ररोह- -ई:
 सार २५३:६.

मणु-
 माणव^१-
 माणव-क- -क: इ १०:७.
 मण्टप^१- -प: शि २, १२; -ये सार
 २२२:११.
 √मण्ड्(वधा.), >मण्ड,मण्डयन्ति
 त्रि ध.
 १मण्ड^१- -ण्डम् श्रे ४, १६; यु५९.
 २मण्ड^१-
 मण्ड-य^१- -पात् शि २, १३.
 मण्डप-स्तम्भ-पर्यन्त- -न्ते
 शि ६, १२९.
 ३मण्ड^१-
 मण्ड-लला^१- -लम् वृ ५, ५,
 २; मना २, १४^१; अना २७;
 ३९; त्रिभार, १३२; रापू ४, ५४;
 योशि १, १७८; ५, १५; १संन्या
 २, ६; त्रिता १, २९; सू १४; सार
 २२४:१; ७; ११; २३७:
 १०; २४२:२३; २७०:३;
 २७२:७; ९; १७; १९-२१;
 २७३:८; १७; २२; २३; २७४:
 ३; ६; १९; २७८:१३; २०; २१;
 २७९:५; १४; १५; २८७:१७;
 २९२:१६; -लस्य सार २७२:
 ११; -ला त्रि ११^१; -ला: त्रि
 ४^१; -लानि मैत्रि ६, ३८; -ले
 वृ २, ३; ५, ५, २; ३; मैत्रि ६,
 १६; मना २, १४^१; अना १८^१;
 आर्षे ८:७; सार २२१:१५;
 २२४:२; २३८:१२; २६३:
 २०; २७२:१०; १२; २७८:
 १२; १५; २७९:४; २८५:१;
 -लेन सार २६४:२०.

मण्डल-पुरुष- -प: सं ३,
 १, २; -पम् सं ३-४, १, १.
 मण्डला(ल-आ)कार- -रम्
 सार २६३:१९.
 मण्डला(ल-आ)द्या(दि-आ)-
 लम्बन- -नम् त्रिवि ८, ८.
 मण्डला(ल-आ)वरण- -जे
 सार २८४:१८.
 मण्डला(ल-आ)सक्ति-
 -क्तिम् सार २७३:२३.
 मण्डले(ल-ई)द्वार^१- -रे
 शि ६, १८९.
 मण्डन- -नात् गोच ६८:१४.
 मण्डु^१-
 माण्डव्य^१- -व्य: वृ ६, ५, ४;
 अक्ष ३, २^१; -व्यात् वृ ६, ५, ४.
 १मण्डूक^१-
 मण्डूक-म(य>)या- -या सी
 १९.
 मण्डूका(क-आ)दि- -दीनाम्
 त्रिवि ५, २.
 २मण्डूक^१-
 माण्डूक^१-
 माण्डूकाय(न^१>)नी-
 माण्डूकायनी-पुत्र- -प्र;
 -त्रात् वृ ६, ५, २.
 माण्डूकायनि^१- -नि:, -ने: वृ
 ६, ५, ४.
 माण्डू(कि^१>)की-
 माण्डूकी-पुत्र^१- -प्र:, -त्रात्
 वृ ६, ५, २.
 माण्डूक्य^१- -क्यम् सु १, १, २६.
 मत् (<मद्-) अस्मद्- द.
 मत- √मत् द.

a) =२मनु- । b) वैतु.पाम. (४, १, १६१) <२मनु- इति । c) व्यु. ? =मरहप- । d) धा. अर्थ: ? =सार- ।
 e) धा. प्राति. चार्थ: ? । f) उत्त. । उप. <√पा (अर्थ: ?) । g) उत्त. । उप. <√ला (अर्थ: ?) । h) तैशा १०,
 ११, १^१ । i) लाल इति निशा. यनि. शोष: द. (तु. ताभ्रि., भार.) । j) =स्त्री. द्विरे (तु. भारा; वैतु. उम. प्र३
 दनि) । k) तैशा १०, १३, १^१ । l) पा. १ महल-> -लम् इति शोष: द. । m) =तीर्थविशेष- । n) धा. अर्थ: ?
 =गोत्रप्रवर्तक-श्रापविशेष- । o) पा ४, १, १०५ । p) पा^१ इति निशा. यनि. शोष: द. (तु. श्रम्या.) । q) धा. अर्थ: ?
 =भेक- । r) पा ४, १, १९ । s) किम् >भापनि: प्र. उत्तं. (पा ४, १, १५४) । t) =तदास्योपनिषद्विशेष- ।

१मतङ्ग^१-
 १मातङ्ग^२- -कम् महा ५, ११५.
 २मतङ्ग^३-
 मतङ्ग-भक्ति- -विम् रा ४२३: ४.
 मतङ्ग-भगवत्- -०पन् रा ४२३:
 ५; -षात् रा ४२३: ६.
 ३मतङ्ग- नाठ. व्यु. औप. द.
 २मात(ह>)ङ्गी^४- -०ङ्गि व ४३५:
 १:३; ५:६; ७:८; -ङ्गी व १९९;
 व ४२७: ८; -ङ्गी व ४३३: ३-६.
 मति- ✓मन् द.
 १मतिमता^५ २कौल ५.
 मत्कुण^६- -मै: १यौत ३३.
 मत्वा ✓मन् द.
 मत्स्व^७- -र: कृ १४; -रे वि ६.
 मा:सर्ष- -र्यम् मै ३,५; मैत्रि ३,
 ५; ते ६,१३; वरा १,१०.
 माससर्षा(र्ष-श्र)ङ्कित-तनु-
 -नवे त्रिवि ८, २०.
 १मत्स्य^८- -रस्य: कौ १,२; त्रिभा २,
 १७; -रस्यम् छां १, ४, ३.
 २मत्स्य^९-
 मत्स्य-कच्छप-वराह-नुसिंह-
 धामन-परशुराम-नाभो(न-उ)-
 पासक- -का: सार २३५:१३.
 मत्स्य-कूर्म-वराह-नारसिंह-वा-
 मन-राम-राम-कृष्ण-शुद्ध-
 कल्कि-सद्योजात-वामदेव-
 -वा: नापू ६, ९.
 मत्स्य-कूर्मा(र्म-श्र)द्विषराह-
 सिंह- -ह्रात् श १३.
 मत्स्य-कूर्मा(र्म-श्र)यादि- -श्र)-
 वतार- -रस: राज ४, १०.
 मत्स्या(त्स्य-श्र)वतार- -र: नापू

५,५; -नापू नापू ५, ८.
 ३मत्स्य^{१०}-
 मत्स्य-पीठ-
 मत्स्यपीठक- -कम् त्रिभा
 २, ४९.
 ४मत्स्य^{११}- -रत्स्येषु कौ ४, १.
 ✓मथ्, मथ-मथ त्रिभा ३, ३१; व
 ४३०: ११; ४५९: ११.
 मथ्यते गौड ५०.
 मथन- -नम् मोशि ६, ७६; यो २,
 ४२; ४३; ४४; ४७; ३, १४; -नात्
 त्रिभा २, १४; -मेन यो २, ४३.
 मथना(न-श्र)वस्था- -स्था यो
 २, ४६.
 मथित- -त्तम् अशि ६, १४; वटु
 ३१७: २०; -ते अशि ६, १४.
 मथ्यमान- -नम् अशि ६, १४; वटु
 ३१७: २१; -नस्य छां ६, ६, १.
 मथुरा^{१२}- -रा गौड २०; ५०५^{१३}; राधा
 ४, ४; -राम् गौड २७^{१४}; -रायाम्
 गौड ३१^{१५}; ४५^{१६}; मोच ६९:
 १५; -नात् गौड २६.
 माथुर-
 माथुर-मण्डल- -लम् राधा
 १, १२; -ले राधा १, १५.
 मथुरा-मण्डल- -ले गौड ३२.
 मथुरा-चर्च^{१६}-
 मथुरावन-मथुवन-महावन-
 श्रादिरवन-भाण्डीरवन-नन्दी-
 श्वत्वन-सन्दवन(न-श्र)जन्दवन-
 खाण्डवन-पलाशवन(न-श्र)-
 शोकवन-केतकवन-द्रुमवन-
 गन्धमादनवन-शोपशायिवन-
 श्यामायुवन-शुज्यवन-दधिवन-

वृषभानुवन-संकेतवन-त्रीपवन-
 रासवन-क्रीडावन(न-उ)सुक-
 वन- -नानि राधा ३, ३.
 ✓मद्>माद्, मादि, मदन्ति त्रि ७^{१७}.
 माद्यति नाप ६, ३१^{१८}.
 १^{१९}माद्यन्ताम् मना २, २; व
 ४६१: १६; नादवस्य मना २,
 १२, २१^{२०}; माद्य वृ ६, ४, १;
 माद्य-माद्य लं २१५: २१.
 मत्त, त्त- -त्त: महा ४, ६४; सु२,
 २, ४४.
 मत्त-काली^{२१}- -०लि व ४३६: २०
 मत्त-दुष्कृत-वारण^{२२}- -शा:
 (१७)^{२३} महा ५, ७६.
 मद्- -द: ते ६, १२; अथ ४, १३;
 वरा १, १०; -दम् नाप ३, ७०;
 गौ १८, ३५.
 मद्-गम(न>)जा^{२४}- -ना पी
 ४२२: ९.
 मद्-भास्य^{२५}- -र्यम् १मंन्या२, ८५
 मद्-मोह- -हेग इ १७: १९.
 मद्-वरा- -शात् सु २, २, ६०.
 मद्-शक्ति-
 मद्शक्ति-वत् सांत् ३, २२.
 मदा(द-श्र)दि- -दि: १कौल
 ४: २.
 मदा(दि-श्र)भिमान-भास्य^{२६}-
 लोभ-मोहा(ह-श्र)तिशायिता-
 -ताम् अशि १३.
 मदा(द-श्र)मद्^{२७}- -दम् क १,
 २, २१.
 मदा(द-उ)कट- -टम् वपू १,
 ५; -ले ते ६, ८२^{२८}.

a) व्यु? = हस्तिन्- । b) व्यु? = ऋषिविशेष- । c) कस. । उप. २भग-वत्- इति नाप. इति कृत्वा
 मौलिघ्राव मत्तः १भग-वत्- इत्यतः सूत्रेण द्र. । d) = देवीविशेष- । e) पा. ? । f) व्यु. ? । g) = क्रोध- । धैप १
 यद्र. । h) = मीन- । वैप १ यद्र. । i) = श्रवतारविशेष- । j) = आसनविशेष- । k) व्यु. ? = देशविशेष- । l) व्यु. ?
 < ✓मथ् इति पाठ. (१, ३९) । m) 'पु' इति आन. । n) 'मदन्ती' इति निसा. श्रज्या. च यनि. शोधः द्र. (तु.
 तात्रि.) । o) तैश्वा १०, १, १६ । p) ऋ २, २, ११ । q) कस. > वस. । r) पा. ? यनि. शोधः द्र. । s) पदविभागाः
 यनि. मद्मप्यामद्यति आनन्दैकघनत्वादित्यभिसंधिः (तु. सस्य. टि. मदन-> म्य-> न्यः; वैतु. शं. प्रसृ.
 मदा(द-श्र)मद्- इति) । t) तदो' इति निसा. यनि. शोधः द्र. (तु. श्रज्या.) ।

मदन^a- नः त्रि ५; -नेन राउ २, ८८.

मदनी- न्या त्रि ५^b.

मदन-कला(ला-आ)व- चम् त्रिता १, ६७.

मदन-राज्य- -ज्ये व ४३२:४.

मदन-सुन्दरी^c- -री राधा १, २२.

मदना(न-अ)धस(>) त्रिता १, ६१.

मदना(न-आ)वेदा-वाण- -गाय व ४५७:३.

मदनो(न-उ)न्मादन-कारि- (न>)णी- -णीम् त्रिता १, ८१.

मदन्य- -न्यः क १, २, २१^d.

मद(त>)न्ती^e-

मदन्ति-(क>)का^f- -का त्रि ६.

मदिरा^g-

मदिरा(रा-आ)मो(व>)दा^h- -दाम् व ४३३:६.

मदिरो(रा-उ)न्मत्त- -त्तः मै ४, २; मैत्रि ४, २.

मघⁱ- -घम् रुजा २, १७.

मघ-य- -यः छां ५, ११, ५.

मघ-यान- -नेन राउ ५, १२.

मादक- -कम् भव ४, १३.

मादन- -नम् काम २१.

मद्- अस्मद्-द.

मिद्-^a गा २४.

मदादाक^l-

मदाताक-महोदर^m- -रौ वपु २, ४.

मद्गुⁿ- -द्गुः छां ४, ८, १, २; मैत्रि ६, ३४.

मद्र^o- -त्रेषु वृ ३, ३, १; ७, १.

१मधु^p- -धु छां ६, ९, १; वृ २, ५, १^q-१४^q; १६^q; १७^q; १८^q; १९; ६, ३; ६^r; ४, २, ५; मना २, ३७^r; ३८^r; ३९^r; ४०^r; ४१^r; ४२^r; अशि ६: १६; १संन्या २, ७५; इ ११:७; सार २८७:९; व ४६१:२११^s; -धुनः इ १८:९; -धुना भ २, २२; कालि ४०२: १६^t; -धुनि वृ ६, ३, १३; -धूनि इ १७: २१; -ध्वः व ४६०: १२१^u.

१माघ(व>)वी-

माघी^v- -घी वृ ६, ३, ६^v; मना २, ३९^v.

मधु(>धू)-कर-

माधु(>धू)कर- -नम् नाप ५, १^w; ७; १संन्या २, ६५; ६६; ७१; -रेण १संन्या २, ५९.

माधुकरी- -रीम् नाप ६, ६.

माधूकर-मातृ- -तरम् मैत्रे २, २३^x.

मधुकर-राजवृ- -जानम् प्र २, ४; वृ १^y.

मधुकर-वृत्ति- -रवा नाप ५, १; ७; १संन्या २, १३; ५९.

मधु-कृत्- -कृत् मना २, ४०^z;

-कृतः छां ३, १, २; २-५, १;

६, ९, १.

मधु-धृत-दुग्ध-दधि-नवनीला- (त-आ)घ- -घाः सार २८१:४.

मधु-ज्ञान- -ने गौ ३, १२.

मधु-त्व- -त्वम् मैत्रि ६, २२.

मधु-दान- -नेन कालि ४०२: १४.

मधु-नाडी^{aa}- -ड्यः छां ३, १, २; २-५, १.

मधु-मक्षिक-

मधुमक्षिक-वत् १संन्या २, ६६.

मधु-मत्- -मत् वृ ६, ३, ६; मना २, ३९; -मत्मा^{ab} वृ ६, ३, ६^{ab}; मना २, ३९^{ab}.

मधुमती- -ती व ४२७: ७१^{ac}; -तीः वृ ६, ३, ६.

मधुमत्-त(म>)मा- -मा तै १, ४, १; नाप ४, ३८^{ad}.

मधु-मांस- -सम् भि ४.

मधु-रा^{ae}- -र^{ae} राउ २, ११; -राणि सार २६६: १०; -रावृ शि ६, ७१.

- मधुर-प्रसन्न-वदन- -नाप त्रि वि ७, ४६.

मधुर-वृत्ति-

मधुरवृत्ति-मत्- -मात् अक्ष १, ५७.

मधुर-स्वभाव- -वः हे ६.

मधुरा(र-आ)दि-

मधुरादि-मय- -यः वृजा २, १.

मधुरा(र-अ)म्ल-तिक्क-कटु-कपा- य-लवण-भेद- -दाः भा ६^{af}.

a) =सामदेव- वा ङी-ह-आदिबीजाक्षर- वा । b) तु. सस्थ. टि. √मधु>प्रथते; वैतु. भारा. पक्षे मदन्या-> न्या इति विकल्पुकः । c) गपू (इ १२५) अस्मद्->मद्->मत् इत्यत्र सस्थ. यनि. शोधः द. । d) =आवरणदेवताविशेष- । e) 'ह मदः' इति पा. १ 'अहम् अदः' इति शोधः द. (तु. ५, १४, ७) । f) व्यु! =गणदेवताविशेष- । g) व्यु! =जलधाकविशेष- । h) व्यु! =देराविशेष- । i) वैपरी यद. । j) श्र १, ११७, २२ । k) श्र १, ९०, ९^l; ७^l; । l) तैसा १०, १५, १ । m) तैसा १०, ४८, १^l । n) तैसा १०, ४९, १ । o) तैसा १०, ५०, १^l । p) मैशु^o इति साम्नि. । q) श्र १०, ८१, ७ । r) श्र १, ९०, ६; ८ । s) असंभल्लसना^o इति अघ्या. । t) 'मान्त^o इति अघ्या. । u) सृष्ट^o राज इति सुपा. यनि. शोधः द. (तु. अयान.) । v) तैसं ४, २, ९, ६ । w) श्र १, ९०, ७ । x) श्र १, ९०, ८ । y) =देवीविशेष- । z) तैसा ७, ४, १ । a') पा ५, २, १०० । b') मधुरप्रसन्नवदन-> -नाप श्यरवाऽऽपराः । c') अरमाः इति अघ्या., साम्नि. ।

मधुरा(र-अ)म्ल-लवण-तिक-
कटु-कराय-रस-सान् गर्भे १.
मधु-वन^१ - नाम् गोत्र २१.
मध्य(धु-अ)द- -दम् क २, १, ५.
मध्वा(धु-आ)दि- -दियु मर १, ३,
३१.
मध्वादि-घत् मर १, ४, १०.
२मधु^{१०} - धोः गोत्र २१.
मधु-कैटभ-(म>)मी- -०प्रि व
धृ६५: २२.
मधु-कैटभ-महियासुर-धृम्ललोचन-
घण्ड-मुण्ड-प्रचण्ड-रक्षवीज-
शुम्भ-निशुम्भ-दैत्य-निकृन्त-
(क>)का- -०के व धृ३६: १४.
मधु-सूदन^{१०} - -०न गो १, ३, ५: २,
४: ६, ३३: ८, २: -नः ना ध:
आवो १: गो २, १: -नाय त्रिवि
७, ४१.
३मधु^{११} - धौ वर ६, ५०.
मधुक^{११} - -कः वृ ६, ३, ९: -क्राय वृ
६, ३, ८.
मधुच्छन्द(इन्द्रस्)- -न्दः(इन्द्राः)
सर २, ३-५.
मधुक^{१२}-
मधुक-कुसुम- -मानि सि ६, १६.
मध्य^{१२} - -ध्यम् गो १, २७: अशि १,
९: ३, १: तेषु, ३७, ६, ५: १योत
९५: त्रिमा २, ७९: १३१: १३२:
महा ४, ५९: ५, ९८: १७३: अक्ष
४, २२: रुद्र १४: यो १, ७: ६९:
वरा ५, २०९^१: च २१: १६:
वट ३१५: १: २शिसं १३९^१:
शु ६२९^१: गो १०, २०, २२:
११, १६: -प्याव छां ६, १३, २:

महा ५, ६१^३: -ध्ये क २, १, १२:
२, ३: प्र ३, ५: छां ३, ५, ३: ११,
१: १६, २: ४: ६, ११, १: धे
४, १४: १९^१: ५, १३: ६, १५:
मैत्रि ६, ३५^१: कै १, ६: जा २: हं
८: मना १, १९^१: २९^१: २, १३:
२^१९^१: ४०९^१: म २: अना ३७:
३८: अशि ५, १६: यो २, ७:
युजा ४, २९: वृषू ५, २: ८: सुवा
१: ४: ११^१: लु १२^१: १४: १५:
१७: ते १, २३: नाद ३४: ध्वा
३९: ४४: ४५: ९३, ११-१४:
१०३: त्रिवि ७: ६४: ७०^१: ७१:
८०: १योत १३८: २योत १, ९:
२, ५: नाप ४, ३८: ५, ९: त्रिमा
२, ७: योचू ७: ८: ८२: ९१: श
१: राट १, ४: २, १२: २३: ३७:
३, १: राव ३, १: रापू ४, ४:
४०: ५, ४: ९^१वा २१: २३:
शां १, ७, १२: ४०-४२: महा १,
१^१९^१: २, ६९: ५, ५: ४८: ४९:
१५६: शारी ५^१: योशि १, १२:
१७५: १७८: ५, ११: १५: ३८:
६, ५: ६: ९: अक्ष २, १७: कुं १८:
पत्र २: १अव ध: यो १, ५२:
जाद ४, १५: १६^१: १७: २६: ६,
२७: ३६: ४१: ७, १२: गोत्र ५,
१८: १९: पं १८: वरा ५, ६७:
सु १, ४४: योरा १५: २०:
अद्वै ३: ८: ११: १४: २७: आच
४^१: इ १७: ३: च २१: ३-५:
१५ ३१: १२: वा १४: १८: सुता
१, १४: ५, १३, स्व ६१: १, क
६४: २: गोच ६६: २१: २३:

नापू ६, ४: नात्र १, २०९^१: सार
२२३: १७: २३४: ३: २३५: ४:
२३७: १०: २३८: ८: २५३:
२२: २६५: २२: २६७: १८:
२७०: १: २८१: १: २८२:
१९: लि ३१०: ६: वट ३१३:
१: शि २, २५६: १३४: १४९^१:
कालि ४०३: ६९^१: पु ५७: तारा
८४: १२: वपू २. ४^१: तांशू ३,
५०: सांश ५४: गो १, २१:
२४: २, १०: ८, १०: १४, १८:
-व्ये-व्ये महा ६, ३८: मार २२२:
१९: २३९: २: २८१: १: २२.
मध्य-ना- -नाः सो २, ६: -नाम् योशि
६, १६: यो ३, ४: ७.
मध्य-नात- -तः ध्वा २६^१: -तम् ध्वा
२८: महा ६, १९: योशि १, ७४^१:
-नाः योशि ६, १०.
मध्य-च्छिद्र- -द्रम् छुपू २०.
मध्य-त्तर(>) तै ३, १०, १^१: वृ ५,
५, १: ६, ४, ३: कला १२: जावा
२०: योरा १२: शि २, ५: ६,
७८: ८२: ८३.
मध्य-त्रिकोणा(श-अ)म-
चतुष्टय- -यात् त्रिता २, ४४.
मध्य-दल- -ले वि १९.
मध्य-देश- -देशे प्या ५६: त्रिवि ६६:
योचू १९.
मध्यदेश-(स्थ>)स्था- -स्थ
प्या ५६^१.
मध्य-नाडी-प्रदर्सन- -नात् योशि
६, ४२.
मध्य-नाडी-विचार- -रस्य योशि
६, ४१.

a) ०प्यात् इति श्रव्या. संदि. । b) व्यु. ? = दैत्यविशेष- । c) = २४ष्ण- । d) व्यु. ? = चैत्रमास- ।
e) व्यु. ? = अग्निविशेष- । f) निसा. ? यनि. शोषः द. (तु. श्रव्या.) । g) व्यु. ? = ३३श्वविशेष- । h) वैप १ यद. ।
i) मा १७, २ । j) 'मध्वे' इति मा ३२, २ । k) ०व्ये इति निसा. संदि., श्रव्या. संदि., ०ध्यम् इति श्रव्या. ।
l) मा ३२, २ । m) तैत्र्या १०, १, १ । n) तैत्र्या १०, ११, २ । o) तैसं ध, १, ९, ६ । p) 'मर्म' इति श्रव्या. ।
q) ०ध्यम् इति श्रव्या. संदि. । r) तैत्र्या १०, ११, २ । s) ०व्ये स्थि ० इति निसा. । t) ०व्ये म ० इति श्रव्या. ।
u) ०शो तु' इति निसा., श्रव्या. संदि., ०स्थाः इत्यपि श्रव्या. संदि. ।

मध्य-दिन-नः छां २, १४, १; नम्
ना५; मना २, ८०^१; नाव् छां २,
९, ६; न्ने छां २, ९, ५; शां १,
७, २; त्रिता ४, ३४; म १, ११.
माध्यंदिन- नम् छां २, २४,
१; १०; ३, १६, २; ३^१; ४; काला
१५; म १, ११; मवा १२; शौ
५२: २८; नस्य छां २, २४, ७;
शौ ५२: १३; न्ने १योत ४३^७;
त्रिवा २, १०१^०.
माध्यंदिन-सवन^१- नम्
जावा २३^६.
माध्यंदिना(न-अ)यन- नः,
-नाव् वृ ४, ६, २.
मध्य-पद्म- अम् ह्यु २१.
मध्यपद्मा(अ-अ)र्चन- नम् राप्
५, १.
मध्य-पुण्ड्र- षड्म् वृजा ५, १.
मध्य-पूर्वा- णम् सु २, २, ५६.
मध्य-भू-पुर- वीथि- ष्याम्
त्रिवि ७, ४८.
१मध्य-म, मां- नः क १, १, ५; छां
६, ५, १-३; वृ १, ५, २१; २२;
२, २, १; ध्या १०२^२; त्रिवा २,
१०५; शि २, ७; अम् मैत्रे २,
२१; योशि ६, १९; त्रिता ३,
१८; रुजा १, ७; १३; २०; जाद
६, १४; वरा ५, ३०; व्यट ४: ११;
१३; १८; मया प्रा १, ६^१; आ
नापट, १५^{१६}; योशि ३, ४५^{१६}; वृ
१०५^{१६}; गार ४०६: १५; मा:
३३६१: २३; मानि व्यट ४: १८;
२१; आन्याम् सु १, १८; २,
५^१; गह ३; लां २१३: ७; शि
६, १७०; व ४२६: ६; मायाम्
पव ४२०: १५^{१६}; यो ३, १९५^{१६};

गार ४०६: १२; -मे ध्या १०३;
त्रिवा २, १०६; योचू १०४;
१०५; शां १, ७, ३; योशि ६, ४७;
४८; ५०^१; त्रिता ३, ४; १०; १३;
जाद ४, ४८; -मेन योशि ६, ५०^१.
मध्यम-दक्षिणा- णाम् शि २,
२७.
मध्यम-द्वार-भाग-
मध्यमद्वारभाग-तत्स(>)
वरा ५, ३९.
मध्यम-पाद-मध्य-प्रदेश- षे
त्रिवि १, ११.
मध्यम-रूप- -पम् ग ८.
२मध्य(म>)मा^१- -माम् सुवा
९^१.
मध्यमा(म-अ)ङ्गुलि-मध्य-
-ध्वेन शि ५, ४७.
मध्यमा-नख-मिलिता(त-अ)-
ङ्गुष्ठ- -ष्टौ त्रिता ३, ८.
मध्यमा-व(द>)द्वा- -द्वे त्रिता
३, ७.
मध्यमा-रूप(प>)पा- -०पे अच्
१५.
मध्य-मण्डल- -ले सार २३३: २३;
२३८: ७.
मध्य-मध्यम- -मम् योशि ६, १९.
मध्य-लक्ष्य- -द्वयम् मं १, २, ११.
मध्यलक्ष्य-लक्षण- -णम् अता
७.
मध्य-वर्तिन्- -र्ति त्रिता १, २५;
२६; -र्तिनः भ २, १४; -र्तिना
त्रिता २, १३; ३, १९; -र्तिनी
त्रिता ३, १३.
मध्य-विवेक-
मध्यविवेक-तत्स(>) सांम् ३,
७७.

मध्य-शक्ति- -क्तिम् योरा ९.
मध्यशक्ति-प्रबोध- -धेन योरा
२१.
मध्य-श्रे(णि>)णी- -णीषु सार
२३३: १३.
मध्य-संचार- -रः सार २२५: १४.
-रे शां १, ७, १०.
मध्य-स्थ, स्था- -स्थः त्रिवि ६२;
-स्थम् पै ३, १; यो ३, २५; -स्था
सार २८५: १.
माध्यस्थ- -स्थम् सांता
१९.
मध्यस्थ-कुण्डलि(त्>)नी-
-नीम् शां १, ४.
मध्य-स्थल- -ले सार २६७: २१.
मध्य-स्थान- -नम् सार २५९: १९;
२८०: ५; -ने सार २६५: २१.
मध्य-स्थित- -ताः सार २५३: ९.
मध्या(ध्य-अ)कार- -रः का ९.
मध्या(ध्य-अ)ङ्गुलि- -लिभिः वृजा
४, १०.
मध्या(ध्य-अ)न्त^१- -न्तम् महा ५,
४६.
मध्या(ध्य-अ)ह- -हः सार २२४:
८- -ह्वात् वृजा ४, १०; -ह्ने नाप
४, १९; सू २९; रुजा ३, १;
जाद ६, २१.
मध्याह-काल-
मध्याहकालि(क>)का-
-का गार ४०६: १९.
मध्याह(ह-अ)र्क-मण्डल-
-लम् मं २, १, १०.
मध्याह-सायाह- -ह्येषु भ १, ७.
√मन्(मधा), मन्वते क १, २, १९^१;
वृ १, ४-५, १७; ४, ३, २०^१; ६,
१, ७; गहा २, १७^१; ५, ७३; ७४;

a) तैशा १०, ५४, १ । b) म^० इति निता । c) म^० इति निता, अण्वा. संटि. । d) 'नं सव^०
इति अण्वा. । e) सुपा. 'मेव (=मः इय) । f) 'मध्यमिकवा' इति अण्वा., अण्वा. । g) =वाग्विशेष- ।
h) 'मा इति निता. संटि. । i) 'तनुमध्ये' इति निता. संटि., 'प्यमे इति अण्वा. । j) अर्थः? । k) समाहारे द्रम. ।
l) 'त इति अण्वा. ।

१भव २६; योशि १, ५४; ३, १३; अण्य ६; वायो २६^१; लि ३११:५; शि ७, ११२; गी २, १९; ३, २७; ६, २२; १८, ३२; मन्व्यन्ते क २, २, १४; ३, ११; मां ७; छां १, २, १०-१२; ८, ८, ५; वृ १, ४, ९; ६, १, १४; गौ १, ७; ८; वृष ४, ७; वृउ १, १२; पदं १; नाप ८, २०; त्रिवि ४, १४; राउ ३, १; तुभ ५; अण्य ७; लि ३११: ६; विद्या १-४; वउ १, १५; २, ३२; ३, १५; २५; गी ७, २४; मन्वसे के २, १; क १, १, २४; कौ ३, १; आर्षे ७: १५; ८:६; २२; २, १०; गी २, २६; ११, ४; १८, ५९; मन्वे के २, १; २; क १, २, ४; १३; वृ ४, १७; वीर, १०^१; ३, १; मैत्रि ७, ९; महा ५, ७६; ८०; १भव १६; सु २, २, ३७; गौ ६, ३४; १०, १४; मन्वासे वृ ३, ९, २५; मन्वताम् पित्र ४, ९; मन्व-न्ताम् १भव १६; भमन्वत क १, १, २; वृ १, २, ७; ४, १, २-७; मै २, ६; ९; मैत्रि २, ६^१; ७, १०; अण्य ६; मन्वत जा १; अना १७; राउ १, १; १कौल ८: ४; गी ५, ८; मन्वेध्वम् वृ ३, ८, १२. मनुते छां ७, १८, १; १९, १^१, ८, ५, २; वृ २, ४, १४; ४, ३, २८^१; ४, २, ५, १५; ते ५, ४०; अज ४, ४८; गौउ ११; शाश; सु २, २, २९; इ १२: १२^१; मन्वते पित्र ६, ४; मन्वानि छां ८, १२, ५; मन्वीत वृ २, ४, १४; ४, ३, २८; ३१; ५, १५; मन्वीरन् छां ७, १३, १; मन्वीथ: वृ ३, ४, २.

मने वृ २, १, १६; ३, ९, २६; ४, १, १; आर्षे ७: ९; ८: १३; मैत्रि ११ ५, २; मंस्यन्ते गी २, ३५. मत, ता- -त: १यौत १३; नाप ५, ३३; त्रिमा २, २३; रार २, १०; २६; ५२; ६५; ५, ७; ११; वरा ५, ४५; सर ३, ३०; ग्व ६१: १०^१; २१^१; २२; वपू १, ६; ७; भव २, ३०; गी ६, ३२; ४६; ४७; ११, १८; १८, ९; -सम् के १, ५; २, ३^१; ४; छां ६, १, २; हं २; शु ३, ७; पं २८; वरा ५, १७; सु २, २, १; गी ३, ३१; ३२; ७, १८^१; १३, २; १८, ६; -ता गौ ४, २४; ते १, ३५; नाद ११; १यौत २७; योचू १०४; रार २, ४२; ज्ञारी ७; सु १, १, १४; भव १, ३१; गी ३, १; १६, ५; -ता: रार २, २८; ७१; अज ४, ८३; सु २, २, १०; गु २०; गी १२, २; -ते वृ ४, ५, ६; गौ ८, २६; -सौ गु १०; १३. मति- -ति: क १, २, ९; ऐ ५, २; छां ७, १८, १; हं ८^१; ते ४, १२; ष्या २३, २; १०; १४; त्रिमा २, ३४; क्षा १, १; महा ४, ६८; ७५; ६, ६०; अज १, १२; वि ६^१; १६; यो १, ७९; जाद १, ८; १०; १८; २, १; १०; वरा २, १०; ५६; ५, १४; पि ९; वि ४; ६; १०; १२; १४; १८; २०; भव ३, ९; सांका ६१; गौ ६, ३६; १८, ७०; ७८; -तिम् छां ७, १८, १; अक्षि १६; व ४३६: ११; -तीनाम् मना २, ४९^१; भ २, ५; -ते: वृ ३, ४, २; ४, ३, २८; -स्या वृ २, ४, ५. मति-मत्- -मान् योशि १, ७३.

मति-विज्ञान-संपत्ति-शुद्धि- -न्वे रुजा २, ५. मत्वा क १, २, १२; २२; २, १, ४; ३, ६; छां ७, ७, १; खे १, ६; १२; गौ १, २८; मैत्रि ६, ३६; सुवा ३; नाप ७^१; १संन्वा २, १३; अक्ष ५, ९. मनन- -नम् ते ३, ४६; ५, १२; ३३; शु ३, १३; नाप ७; पै ३, १; महा ५, ६२; भज २, २५; अण्य ३३; जाद १, २०; -नात् रापू १, १२; महा ४, १२३; योशि १, ५४; २, ७; -नेन महा ३, १३. मनन-ध्यान-भेद- -दात् जाद २, १४. मनना(न-आ)दि- -द्वी नाप ५, १. मनना(न-आ)स्पद- -दम् महा ५, १२५. मननो(न-उ)थ- -न्वे अज २, २४. १मनस^१- -न: के १, १-३; ५; ४, ५; क १, ३, ३; १०; २, ३, ७; प्र २, ९; ४; ४; ८; ६, ४; सुं १, १, ८; २, १, ३; २, २; ५; ऐ शां^१; १-२, ४; ५, २; तै १, ७, १; ३, १, १; ४, १^१; १०, ३; छां १, २, ६; ७, ३^१; २, ७, १; ११, १; ३, १३, ४; १८, १; ४, ३, ३; ८, ३; १६, १; ५, १, ५; ११^१; १४; १८^१; २, २२, २; ६, ५, १; ४; ६, २; ५; ७, ६; ८, २; ६; १५, १; २; ७, ३, १^१; २^१; २६, १; ८, ६, ५; १२, ५; वृ १, २, १; ६; ३, ६^१; १६; ४, ७; १७; ५, ३^१; ४-७, १^१; १३; १९^१; २, १, १७; ४, ११; ३, १, ६^१; ९^१; २, ७; १३; ७, २०^१; ९, १०-१७; ४, १, ६^१; ४, ६; १८; ५, ८, १; ६, १, ५; ११^१; १४; खे २, १^१;

a) मंत्रा १, ५, १०। b) 'तेदं इति सुपा. १ 'मनुते तं' इति द्विपदः शेषः द्र.। c) 'मतः' इति SCHR. पठे.

[वित्त. वे. (NIA २, २३१)]। d) =आवरणदेवताविशेष-। e) तैत्र्या ३, १५, १। f) 'कृवा' इति अण्वा.। g) ऐत्र्या २, ७, १। h) सा ६१, १।

४९^५; ६; ९; गी २, २५; ३;
 २९^५; ३०; मै २, ९; ४, ३; ६; ७;
 ११; ५, ५; मैत्रि २, ६; ४, ३; ६;
 ५; ९; १३; १९; २४; ३०; ३१;
 ३४^५; ७, ११; मैत्रे १, ४, २; २;
 २; ऋषि १-३; कैरि, १५; हंरि ५;
 २१; गर्भ ५; ना १; मना २,
 १५^५; ४२^५; ७९^५; ८०^५;
 अना ५; १६; अशि ५, २१; ६,
 ८^५; कौ शां^५; २, १^५; २^५; ३;
 ४; १३-१५; ३, २; ३^५; ४; ७^५; ८;
 ४, १९; सुभा ५; ६^५; ७^५; ९^५;
 ११^५; १४^५; लु ३; ससा १, ४३;
 गु २, ५; ते १, ३५; २, ७; ३, ४४;
 ४, ९; ५, १५; ३०; ७६; ८०;
 ९८-१०२^५; ६, ३२; ९६; नाद
 शां^५; १८; ३७-३९; ४७; ४८;
 ध्या २५^५; ९३, १४; १०५; ऋषि
 ४४; १यौत ६५; १३८; २यौत
 १, ९; भायो शां^५; २०; नाप
 ५, १; ६, १^५; त्रिवा १, ९;
 २, २२; २७; ११६; १६४;
 मं २, १, ८; २, २; ४, ५^५; ३;
 १, ४; ५, १, १; ४; ५^५; रक
 ११; त्रिभि ५, १२; शां १, ७,
 १८^५, २१; २२; २५; पै २, २१;
 २७; ४, १; २१; महा १, १^५;
 २, २६; ५९; ३, १३; १५;
 १८; ४, ३३; ५१^५; ५२^५; ८७;
 ९४-९६; ९९; १०१; १०३;
 १०५; १०७, १२३; १२४^५; ५,
 ५२; ६३; ६७; ७०; ७५; ७८-८०;
 १२६; १३०; १३५; १४६;
 १४७; १५०; १५१; १५४;
 १८३, ६, ५; २७; ३३; ७४; शारी

१; ६; योशि १, ३९; ५९; ६०;
 ७१; १२३; १७१; ३, १२; २४;
 ५, ७; ४८; ५२^५; ५४^५; ६, २१^५;
 ६०^५; ६१^५; ६२; ६३^५; ६४^५; ७०;
 ७३; १संन्या २, ४६; ४८; अन्न
 १, ३०; ४१; ४३; ५३; २, ९; २४;
 ३२; ४३; ३, ३; ४, १३; १७; ४८;
 ७८; ९०; ५, १०; ३८; ४०; ६०;
 ६२^५; अध्या १^५; ४; सवि ८^५;
 पाशु २, ८; १२; १४; त्रिता ५,
 १; २; ३^५; ४; निर्वा मुद्र अक्ष
 शां^५; कर्ष ३२; भा २३;
 यो ३, ४^५; ५^५; जाद १०, ४; ७;
 प्रा ४, १; गोव ११^५; ५६; वरा
 १, ४; २, ७८; ८०; ५, ५२; शा
 १; सौ शां^५; २, १९; सर
 शां^५; ३, ३१; सु २, २, १६;
 २०; २९; ३४; ३६; ३९; ४०;
 ४२; ४३; व शां^५; निघ १,
 ३; २प्र ३३; ४; म ४८; ४; वि
 १; ३; ५; ७; ९; ११; १३;
 १५; १७; १९; नाव ३, २; पा
 २, ६; राधा २, ८; लां २१६;
 १८; सार २२१; १; २२६;
 १८; २२७; १३; २४९;
 १२; २५१; ९; २५६; १०;
 २७८-२७९; १७; २८३; ७;
 २८८; १८; २०; २९१; ३; १९;
 सं ३; लि ३०९; ८^५; वृद्ध
 ३१७; १२; १सि सं १-६^५;
 २सि सं १^५; २; ३^५; ४^५; ५^५;
 ६^५; ७; ८^५; ९-३७; गु ४१;
 व ४६; २२; भव २, १०; २०;
 ३, १४; १७; १८; २१; २६; ५, २;
 विम ३, ८; ६, ३; ४; अवि १-४;

वपू १, १; २; सांख २, २६;
 ४०; ६, २५; सांका २७; वसू
 ४, २, ३; गी १, ३०; २, ६०; ६७;
 ३, ४०; ४२; ५, १९; ६, १२; १४;
 २५; २६; ३४; ३५; ७, ४, ८, १२;
 १०, २२; ११, ४५; १२, ३; ८;
 १५, ९; १७, ११; -नस: ई ४;
 के १, २; क १, ३, १०; २, ३, ७;
 तै १, ६, २; ३, ४, १; ऐ १, ४;
 छां ७, ३, २^५; ४, १; वृ १, ५, ९;
 १२; ३, ७, २०; ४, ४, १८; गौ
 ३, ३, १३४; ४; ४१; मै ४, ४,
 २; मैत्रि ४, ३; ६, १३; ३४;
 मैत्रे १, ४, ४; ऋषि ३; मना २,
 ६०^५; ७९^५; वृजा १, १९^५;
 वृषू १, १९^५; वृच २, २; ३; सुभा
 १९^५; लु ११; ते १, ३४; ३९;
 त्रिवा २, २६; ११४^५; १३४; पै
 ४, २०; महा २, ३८; ४, ३४;
 १०५; ५, ७३; ७६; ९७; १६४;
 योशि १, १७८; ५, १५; ६, ३७;
 १भव २१; त्रिता ५, १; मादि ५;
 गोषू ४८^५; सु २, २, ३८^५; वरा
 २, ७८; सार २२७; १९; २८३;
 ९; गु ४१; अवि ३; वृ ३,
 ४९; सांख ५, ६९; योषू २,
 ५३; गौ ३, ४२; -नसा के १,
 ५; क १, ३, ५; ६; २, १,
 ११; ३, ९^५; १०; १२; सं ३,
 १, १०; तै २, ४, १; ९, १; ३, ४,
 १; ऐ ३, ८^५; ११; छां २, २२, २;
 ४, १६, २; ५, १, ८-१०; ७, १,
 १; ८, १२, ५; वृ १, ३, ४; ५, १;
 ३, १, ६; २, ७; ४, १, ६; ४, १९;
 ६, १, ८-१२; ४, २४; शं २,

a) मा ११, ४। b) तैसा १०, १४, १। c) तैसा १०, ४१, १। d) तैसा १०, ६३, १। e) तैसा १०, ६४, १। f) सौ १०, २, २७। g) ऐसा २, ७, १। h) 'मत्तः' इति निता. यनि. तोषः द. (गु. अम्या.)। i) महत् 'मृगम' इति ऋष्या. संटि.। j) 'नव्या इति निता.। k) अ १०, ५७, ६। l) मा ३४, १-६। m) मा ३४, ४। n) मा ३४, २। o) मा ३४, ३। p) मा ३४, ६। q) मा ३४, ५। r) मा ३४, १। s) अ १०, २७, १२। t) तैसा १०, ६३, १। u) अ १०, १२९, ४। v) अ १०, ९०, १३। w) मा ४०, ४। x) तैसा १०, १, ३।

२५; ३५; ८; ३; १३५; ४;
 १५५; २०; मी४; ३; मीमि६; ३०; १;
 मैत्रे १, ४, २; मयि २०; जा ५; गर्भे
 १; मना १, ३५; १२५; २, १५;
 ३१५; ३२५; ४०५; ४५५;
 ५१५; अनादे २; मदे, १६; गी १,
 ४; ७; २, १३; १४; ३, २; ४; वृजा
 १, १; ४; २४; वृद्ध १, १; वृत् ४,
 ३; ते १, २०; ३५; ५, ४०; ४५;
 ध्या ६६; गोच् ३८; ८७; नाप
 ३, १०; २२; ७०; ४-५, ३८;
 त्रिमा २, १०९; १२९; रा १७५;
 त्रिवि ६, १४५; अता ५; रा ४,
 ७; रा ३-४, १; शां १, २; ७,
 १८; ४४; ५१; २, १; महा १,
 १; ३, ५७; ४, ४९; ५०; ६७;
 १०७; ५, १८३; ६, २७; ३३;
 ४२; शारी ५; योशि ६, ६२; ६३;
 ६४; ७३; १संन्या २, २६; १५
 ४१८ = १७; २५; अक्ष १, ५३;
 २, ६; ३, ५; ७; अक्षि ८; ऊं १४;
 यो ३, ५; ६; जाद १, ७; ११; १३;
 १५; १७; ८, ९; गोड ३०; वरा
 ५, ३५; शा ३५५; गह २५;
 सर १, ४; इ १० = २१; ११ = १;
 १२ = ७; १५ = ८; नापू ४, ८;
 २७; मार २२७ = १७; २१;
 २७५ = ११; २८३ = ६; २सिसं
 २; सिध, ६६; काशि ०२ = १२^म;
 २२; यु ६०; ६३५; व ४६१;
 १३५; ४६४ = १४५^म; चक्र १०,
 विद्या ४; भव ३, २५; ३०; ५, ३;
 १४; अवि २०; वपू १, १; २; ४;
 ५; वड १, २०; ३, ७; ६, ३; गी ३,
 ६; ७; ५, ११; १३; ६, २४; ८;

१०; नसाम् वरा २, ८१; नसि प्र
 २, १२; ३, ९; ४, २; ५, ४; ए
 शां ५; ५, २२, २; ६, ८, ६;
 १५, १; २; वृ १, ३, ६; ३, ७, २०;
 गी १, २; मैत्रि ४, ५; मैत्रे २,
 १९; हं २१; अ ३; कौ नाद
 आयो शां ५; वपू १, १; सुवा ५;
 नव ३, १२; सं १, २, ७; अता
 ५; निर्वां शां ५; २९८ = १८;
 मुह शां ५; महा ३, ३; योशि ६,
 ७१; १संन्या २, २६; अक्ष १,
 ११; २, २४; ५, ७२; ७८; अक्ष
 त्रि सर मौ व शां ५; जाद १०,
 ९; गोड ४९; सार २२० = २३;
 २३१ = ७; २३५ = २०; २४३ =
 १९; २२; २६८ = २०; २७५ =
 १७; २७७ = २३; २८२ = २३;
 २८३ = ६; २८७ = ८; क्यु २४;
 मयू ४, २, १; नसे वृ ६, २, २;
 नांसि छां ५, १, १५; मार २४१ =
 २१; २६९ = २३; २८५ = ८.
 मानस- -सः वृ २, ५, ७; ६,
 २, १५; पाशु १, १२; जाद २,
 १३-१५; नसम् मना २, ७८५;
 ७९५; ते ५, १७; १-४; गोच्
 १०९; १२१; शां १, २; ७, २३;
 पाशु १, ११; जाव १, २०; ली
 २, १५; इ ११ = १३; १५; ति ५,
 ११; ३६; भव ५, ३; गी १७,
 १६; सः मना २, ७९५; गी
 १०, ६; सः सुवा १; से मैत्रि
 ६, २४; मना २, ७८५; ७९५;
 शां १, ७, २३; १संन्या २, १७;
 गोड ५१; सर ३, १; अर्धभा
 २०; सेन मना २, ७९५; राधा

१, २८; ३, १८; ४, २५; -सी;
 योशि १, २८; गोड ५८.
 मानसी-सी कौ १,
 ३; -सी: सु २, २, ६९; -सीम्
 महा ४, १००; काम २५.
 मानस-पूजा- -जया
 राधा १, २८; ३, १७; ४, २५.
 मानस-मध्य-(ग>)मा-
 -गाम् शां १, ७, १८.
 मानस-वृत् प्रसू ३, ४५.
 मानस-सरोवर- -रम्
 म ४९ = ९; सार २५६ = २.
 मानस-स्नान- -नम्
 नाप ७.
 मानसा(स-अ)चैन- -नम्
 नाप ७.
 मानमो(स-उ)पचार-
 -रै: लां २१४ = ३.
 मन-आदि- -दि: ससा १, २१.
 मन-आदि-चतुर्दश-करण-
 -गै: ससा १, ६; १४.
 मन-आदि-साक्षिन्- -क्षिणम्
 वृत् ७, १०.
 मन-आद्य(दि-अ)विभू-
 -तारम् वृत् ७, १०.
 मन-आनन्द- -न्दम् तै १, ६, २.
 मन-ईप्सित- -त्तानि सार
 २७० = ११.
 मनः-कल्पन- -नम् गोपू ३४.
 मनः-कल्पना- -नया महा ३, ५.
 मनः-कल्पित-
 मनःकल्पित-त्व- -त्वात्
 मं २, ३, ४.
 मनः-क्रोश-विहीना(न-आ)-
 रमन्- -रमा ते ४, ७४.

a) मा ११, २ । b) 'सविष्ठा' इति मा ११, ३ । c) तैआ १०, १, ३ । d) तैआ १०, १, २ । e) 'नुमत्ता'
 इति श्र ५, ४, ९ । f) तैआ १०, २४, १ । g) तैआ १०, २५, १ । h) श्र ४, ५८, ६ । i) तैआ ३, ७, ७, २ । j) तैआ
 १०, ६३, १ । k) तैआ ८, ४, १ । l) वाष २, ११ । m) 'मैथुनासक्तमानसः' इति तान्त्रि. । n) तैआ ४, ३८, १ ।
 o) मनोमं इति श्रव्या. । p) ऐआ २, ७, १ । q) 'लम्' इति निता. । r) तैआ १०, ६२, १ । s) तैआ १०, ६३, १ ।
 t) तैआ १०, ६३, १ । u) 'सममानसैः' इति श्रान. । v) 'ल्पितम्' इति श्रव्या. संदि. ।

मनःक्षय- -यात् मैत्रि ६,२०.
 मनः-क्षोभ- -भम् व ४५९,४.
 मनः-विशाच- -चम् अञ्ज ५,
 ३५.
 मनः-पितृ- -त्ता महा ५,८१.
 मनः-पूत- -तम् भव ५,१०.
 मनः-पूति- -तिम् मैत्रि ६,९.
 मनः-प्रग्रह-
 मनःप्रग्रह-वत्- -वात् क१,
 ३,९; भव २,१२.
 मनः-प्रचार- -रात् पित्रि ५,५३.
 मनः-प्रद- -दः पा २,६.
 मनः-प्रभा- -भा वरा ४,२२.
 मनः-प्रवाह-योग-रूप-
 निवात-स्थित-दीप-
 मनःप्रवाहयोगरूपनिवात-
 स्थितदीप-वत् मं ३,१३.
 मनः-प्रशमनो(न-उ)पाय- -यः
 महा ५,४२.
 मनः-प्रशम-मात्र- -त्रेण महा
 ४,९०.
 मनः-प्रसाद- -दः गी १७,१६.
 मनः-प्राण^०- -णःत्रिन्त्रा २,१६४;
 -णान् त्रिन्त्रा २,२२.
 मनः-प्राणे(ण-इ)न्द्रिय-क्रिया-
 -याः गी १८, ३३.
 मनश्-चक्षुर्-अधीन-
 मनश्चक्षुर्धीन-त्व- -त्वात्
 अता १०.
 मनश्-चार- -रम् जाद १,१४.
 मनः-शक्ति- -क्तिःमहा ५,१४६.
 मनः-शान्ति-पद(इच^०)-
 -द(इच^०)म् मैत्रि ६,३४.

मनः-शुद्धि- -द्धिः शा १, १;
 -द्धिम् सं २३.
 मनः-शून्य- -न्यम् सौ २,१७;
 सु २,२,५५.
 मनः-पष्ट- -ष्टानि गी १५,७.
 मनःपष्टे(ष्ट-इ)न्द्रिय- -याणि
 कृपु १०१^०.
 मनःपष्टेन्द्रिय-स्थिति-
 -त्तेः महा २,३.
 मनःपष्टेन्द्रिया(य-श्चा)-
 स्पद- -दम् अञ्ज २,२११^०.
 मनःपष्टेन्द्रिया(य-श्च)-
 तीत- -तम् अञ्ज १,२१.
 मनसि
 मनसि-ज- -जम् राष्ट्र १,३;
 -जाः नापृ ५,२३.
 मनस-त्ता- -ताम् अञ्ज ४,१६.
 मनश्-तुष्टि- -ष्टिः महा ६,३०.
 मनस-त्व- -त्वम् पाशु २,१२.
 √मनस्य, मनस्पति छां ७,
 ३-५,१.
 मनस-वत्- -वान् मैत्रि ६,१३.
 मनः-संग्रह- -हम् सार २८३:
 ६.
 मनः-सहकारि-चक्षुस्- -क्षुषा
 अता १०.
 मनः-सुस्थिरो-भाव- -वः
 शां १,७,१०^११.
 मनः-स्थान- -नम् शारी १,१.
 मनः-स्थिति- -तिः शु २,५.
 मनः-स्थैर्य- -र्यम् मं २,१,९;
 शां १,७,१०.
 मनः-स्पन्द- -न्दःशां १,७,२९.

मनःस्पन्दो(न्द-उ)पशान्ति-
 -न्या शां १,७,२५^०.
 मनीषा^१- -पया मना २,७९१^०;
 -या क २,३,९१^१; ऐ ५,३; हे
 ८; मना २, ७९१^०; वृजा १,
 ११^१; वृष १, ११^१; त्रिवि ६,
 १४^१; युद्धो; ६३१^१; -पाम् युद्ध-
 मनीषिन्- -विणः क१, ३,
 ४; गी २,१,५; ४,५४; मना २,
 ७९१^०; ऐ ४, २; महा ५, ८०;
 कथ ६; वृजा २,७; जाद १,२०;
 सर २, ६१^१; नापृ ५, ३२^१;
 १शिसं २१^१; २शिसं ३१^१; भव
 २,११; ४,५; कष्टु ३,६; गी २,
 ५१; १८,३; -विणा शां १, ७,
 ३७; -विणाम् ते १,२; गी १८,
 ५; -विभिः भव ४, १९; -वी
 ई ८; शे ३,१३^१; ४,१७^१;
 मना १,३१^१; अ ३, ८^०; व १;
 सु २९३: १.
 ?मनोक्लृ^०- -तेन प्र ३,३.
 मनो-गत- -ताः पदं ४^०; -तात्
 गी २,५५.
 मनो-गति- -तिः अञ्ज १, ५०;
 भव ३,१२.
 मनो-जव- -वेषु नापृ ४,१३^१;
 मनोजव(व)वा^०- -वा
 सुं १,२,४.
 मनोजव-त्व- -त्वम् जाद
 ६, १९.
 मनोजविन्-
 मनोजवि-त्व- -त्वम्
 वोल् ३,४९.

a) वसतः । b) पा. ? यनि. शोषः द्र. । c) °नःसर्वे^० इति पा. ? यनि. शोषः द्र. । d) °रोभा^० इति निगा. यनि. शोषः द्र. (तु. अश्या.) । e) °न्यायाम् इति अश्या. । f) वैप१ यद्र. । g) तैत्रा १०,६३,१ । h) तु. तैत्रा १०,१,३; भा., रामा; वैतु. शं., सा. च (तैत्रा.) मनस्-+ईत्- (<√ईत्>)मनीष->यनि. रु. इति ? [एव दि गरुडोदासो नोपपद्यते (तु. तैत्रा.)] । °पी इति निसा. । i) श्र १०,१२९,४ । j) तैत्रा १०,१,३ । k) श्र १,१९४,५५ । l) मा ३४,२ । m) °पा इति तैत्रा १०,१,३ । n) °पा इति तैत्रा १०,१,३; JC. । o) 'वदी' इति निसा. । p) पा. ? यनि. तु. शं. प्रथ. ; वैतु. °नोधिक्^० इति निगा. । q) °तात् इति आन. संटि., °तात् इति अश्या. । r) °जी^० इति मुग. यनि. शोषः द्र. (तु. श्र १०,७१,१ । s) तु. ण. वृ २२९६ ।

मनो-ज्ञ,ज्ञा- -ज्ञा सार २३८ :
 ४९^१; -ज्ञानि सार २३८ : ३.
 मनो-दण्ड- -ण्डः नाप ६, ५;
 -ण्डम् नाप ५, १; ३९.
 मनो-दय- -दयम् गौ ३, ३१.
 मनो-द्वार- -रेण तु १२^०.
 मनो-धर्म- -र्मः महा ४, ९९.
 मनो-धारण- -णम् शां १, ९.
 मनो-धैर्य- -र्यम् योचू ११०.
 मनो-ध्यान- -नम् अज १, २९.
 मनो(नस्-अ)नवस्थान- -नात्
 सांका ७.
 मनो-नाथ- -थः वरा २, ८०.
 मनो-ना(मन्>)स्त्री- -स्त्री महा
 ४, १०८; ११९.
 मनो-नाश- -शाः महा ४, ११०;
 ५, १७; अज ४, १८; ८१; सु २,
 २, ३५^१; ३८; -शस् मं ३, १, ५^०.
 मनोनाश-वशा(श-अ)-
 जुग(शग^०) - ना(शग^०)म् महा
 ६, ७५^०.
 मनो-निरोधन- -नम् मं १, १, ७.
 मनो-निरोधि(न>)नी- -नी
 निर्वा २९८ : २.
 मनो-निर्मथन- -नात् त्रिना २,
 १४.
 मनो-निर्वासनी-भाव- -वम्
 सु २, २, १६.
 मनो-निवृत्ति- -तिः मं १, १, ४.
 मनो(नस्-अ)नुकूल- -ले धे २,
 १०; मव ३, २३.
 मनो(नस्-उ)न्मन^१ - -नाथ मना
 २, १८९^०.
 मनो(नम्-उ)न्म(नि>)नी^१-
 -नी नाद ४८; शां १, ७, १०९^१.
 मनोन्मनी^१ - -नी

नाप ८, १; तु १०^१; -न्वाम् पप
 ४१२ : ३१; -न्वै योशि ६, ३.
 मनोन्मन्व(नी-अ)वस्था-
 परिपक्- -कम् मं ५, १, २.
 मनो(नस्-अ)प्रचार- -रात् पित्र
 ५, ५^१.
 मनो-बुद्धि- -द्धयोः त्रिभा १, ६.
 मनोबुद्धि-समन्वि(त>)-
 ता- -ताम् सु २, २, ७१.
 मनो-बुद्धि-चित्ता(त-अ)हंकार-
 -राः नाप ५, १४.
 मनो-बुद्धय(द्धि-अ)हंकार-
 चित्त-संघात-
 मनोबुद्धयहंकारचित्त-
 संघात-रु- -काः ते ६, ३^१.
 मनो-बुद्धय(द्धि-अ)हंकरि^१- -ति
 वरा ३, १८^१.
 मनो-भञ्ज(न>)नी^१- -नि व
 ४३२ : ६.
 मनो-भव- -वः सार २२८ :
 ११९^१; -वाः ते ५, १०३.
 मनोभव-भाव- -वे सार
 २८७ : ६.
 मनो-भाव- -वेन सार २८६ :
 १६.
 मनोभाव-बुभुक्षा- -त्सया
 सार २४१ : ७.
 मनोभावा(व-आ)पत्र,षा-
 -न्नः सार २६० : १; २८८ : १९;
 -आ सार २२५ : १६.
 मनो(नस्-अ)भिन्न-सति- -तिः
 वि ८.
 मनो(नस्-अ)भिलपित- -तम्
 सार २४८ : १२.
 मनो(नस्-अ)भिलाप- -पः सार
 २३० : १८; २१; २३२ : २३;

२८६ : १३; -यम् सार २३० :
 २२; २७५ : १७.
 मनो-भेद- -दात् नाप ४, २९.
 मनो-भगि- -णिः महा ५, ८२;
 -णिम् महा ५, ८३.
 मनो-भक्त-गजे(ज-इ)न्द्र-
 -न्द्रस्य नाद ४४^१.
 मनो-मध्य- -ध्ये शां १, ७, ४३.
 मनोमध्य-गत- -तः . व
 ४६७ : १.
 मनो-मनन- -नम् महा २, ५२.
 मनो-मय- -यः मुं २, २, ७; तै
 १, ६, १; २, ३, १; छं ३, १४,
 ३; वृ १, ५, ३; ४, ५; ५, ६, १;
 मै २, ९; मैत्रि २, ६; सुभा ५;
 ससा १, १५; कठ २०; अद्वै २२;
 -यम् तै २, ८, ५; ३, १०, ५; ते
 ५, १०३; महा ४, ५०; -याः ते
 ५, १०४; -यात् तै २, ४, १;
 -येन कठ २०.
 मनोमयी- -यीम् अना
 १८.
 मनोमय-कोश- -शाः पै २,
 २१.
 मनोमय-ज्ञानमय- -यान्
 थो ३, ३२.
 मनो-मल-त्याग- -यः मैत्रे २,
 २; स्क ११.
 मनो-मात्र-स(इज^०)य- -येन
 महा ४, २८.
 मनो-यज्ञ- -ज्ञस्य पाशु १, १७;
 -ज्ञेन अव्य ४.
 मनो-याग- -याः, -गस्य पाशु
 १, १८.
 मनो-युक्त,क्ता- -क्तम् मं १, ३, ९;
 अता ९; ११; शां १, ७, ३७;

- a) °नोघा° इति अच्चा. । b) °शः इति निसा. । c) पा.‡ यनि. शोधः द्र. । d) °नावाद्° इति निसा. संटि. । e) तैम्बा १०, ४४, १ । f) =अवस्थाविशेष- । g) =नात्राविशेष- । h) °ना इति पा.‡ यनि. शोधः द्र. । i) °द्विर्हं° इति निसा. यनि. शोधः द्र. (तु. अच्चा.) । j) समाहारे द्वस. । k) °तिः इति अच्चा. । l) =अनङ्ग- । m) °नोन्मत्त° इति अच्चा. । n) निसा. पा.‡ यनि. शोधः द्र. (तु. अच्चा.) ।

-का अता १०; -केन अता १०.

मनोयुक्ता(क-श्रा)न्तर-
दृष्टि- -दृष्टिः सं १, ३, २.

मनोयुक्ता(क-श्रा)भ्यास-
-सः अता १०.

मनोरथ^१- -थम् गी १६, १३;
-थान् त्रिवि ५, ४; -थेन सार
२८९; ११; -थैः भव १, ४३.

मनोरथ-मय- -यम् सार
२९१; २३.

मनोरथ-शत- -तैः सार
२४१; २३; २७४; १.

मनो-रम, मा- -मम् सार २२५;
८; २२९; २३; २६८; १७; -रमा
सार २२३; २; २२५; १५;
२२९; १६; २३; २३४; ५;
२४२; २१; २८९; ३; -मणि
सार २२३; १२; -मे जाद ५, ४.
मनो-राज्य- -ज्यम् महा ५,
१४; वरा २, ६४.

मनो-राम- -मम् नाप ३, ६७.
मनो-रूप- -पम् ते ३, ४८.
मनो-लक्ष्य- -क्ष्यम् शां १, ३, ७.
मनो-लय- -यः मवा ७; -यम्
योशि ५, ४७; ५१.

मनोलय-कारण- -णम् सं ५,
१, ३.

मनोल्या(य-श्रा)विशेष- -वे
सं २, ३, ३.

मनो-वचस^२- -चोभिः महा ५,
४६; अक्ष ५, ८९.

मनो-वत्त मम् २, ४, १२.
मनो-वन्त^३- -नम् १ संन्या २, ५४.

मनो-वश- -शात् त्रिमा २, ११७.
मनो-वाह- -काय- -कर्मन्-
-मंणाम् शां १, १; -मंभिः नाप १;
३, ६०; ५, ३९; शां १, १४.

-मोणि मना २, ६६७.

मनो-वाग्-देह-संभव- -वम्
भव ५, १.

मनो-वाच्- -वाचाम् मैत्रे १, ४,
९; त्रिवि १, ५; ६, १५; ७, १७;
अभ्या ६३; अक्षि ४८; सि ६, ३.

मनोवाग्-जगोचर- -रम्
निर्वा २९७; १०.

मनो-वायु^४- -यू नाद ५०.

मनो-विकल्प-संज्ञात- -तम्
महा २, ३४.

मनो-विद्- -विदः गी २, २५.
मनो-विलास- -सः महा ४,
६८.

मनो-वृत्ति- -त्तिः शां १, ७, ३७.
मनो-वेग^५- -० गलां २१४; १३.

मनो-व्याधि- -धेः महा ४, ८८.
मनो-व्योमन्- -स्त्रि महा ४,
११७.

मनो(नसु-श्रा)हंकार-विलय-
-ये अक्ष १, ५२.

मनो-हर, रा- -रा राधा १,
२४४^६; -राः सार २३२; १६;

-राणि सार २८७; ११; -रे शि
४, ६३; -रेण सार २३७; ९.

मनोहर-शब्द- -शब्दे सार
२२६; १२.

मनोहर-शोभा- -भाम् सार
२२२; १५.

मनो-हारि(न>)णी- -णीम्
सार २३२; ११.

१मनु^७- -नवः म १, १; गोपु २४;
-नुः ते ४, १८; द २; ४; ७; ९;

१३; सार २, १; १०; १८; ५०;
७६; ८०; रापु ४, ६४; सू २६;

म २, ४^८; ह ८; नापु ४, २९;
सुता १, २; व ४२७; १७; -नुना

सार २, १२; त्रिता १, ५९; ४,
३१; -नुम् सार २, ६; ११; १५;

७२; ८५; ९४; ३, १; ४; ७; राउ
३, १; म २, २८; गोपु २३;

२६; ४७^९; -नुषु सार ५, १५;
-नोः सार २, २; २१; ४३; ९५;

राउ ५, १; त्रिता ४, २८.
मनु-जापिन्- -पी कालि ४०२;

१८.
मनु-परायण- -णः सार ४, १२.

मनु-राज-
मनुराज-क- -कः सार २, ५६.

मनु-संयोग- -गम् कुं १४^{१०}.

मनु-स्वरूप- -पम् ग ७.
२*मनु^{११}-

१मानव- -वः त्रिवि ५०;
रापु ३, १; कठ ९; सु १, १;

२०; शि ६, २९; २२०; स ३७९;
१८; रा ४२४; ४; ९; ११; १२;

४२५; १५; १८; -वः व ४६५;
१४; १८; गी ३, १७; १८, ४६;

-वम् भव १, १६; वाः श्वे ६, २०;
वृजा ५, ९; योशि १, ३२; पित्र

५, १२; गी ३, ३१; -वानाम्
गोपु २४.

मानवी- -वी गोउ ६३;
त्रिता १, ६२; -वीम् त्रिता १, ६१.

मनु-ज- -जानाम् जाद ४, २^{११};
३मनु^{१२}- -नवः पित्र २, ८; गी १०,

६; -नवे छां ३, ११, ४; ८, १५,
१; गी ४, १; -नुः छां ३, ११,

४; ८, १५, १; सू १, ४, १०; तै
४, ४, १३; मना २, १५^{१२}; सुपु

४, १५, २३; गोच ६८; १२; गी
४, १; -नुष्यः तुल ७१; २३.

२मानव- -वः छां ४, १७,
१०; -वम् छां ४, १५, ५.

a) न्तए इति शब्दा. मंटे.। b) वेप १ यद.। c) दस.। d) मतो. घस.। e) तैशब्दा १०, ६६। f) वस.।

g) मनने धा. दृतिः। =मन्त्र-। h) 'मन्थम्' इति श्रान.। i) मनसि सं इति शब्दा.। j) धा. अर्थः? =मनुष्य-।

k) 'मानवी' इति श्रान.। l) 'मनुष्याणाम्' इति शब्दा. मंटे.। m) धा. अर्थः? =प्रजापतिविशेष-। n) तैम् १०, १४, १।

४^०मनु^०-

मन्त्र(नु-अ)न्तर- राणि शि २, २१.

मन्वन्तर-सहस्र- -सैः राउ ३, १.

मनुस^०-

मानुस^० -पः तै २, ८, १; -पम् तै १, ९, १; छां ५, ३, ६; वृ १, ४, १७; २, ५, १३; गी ११, ५१; -पस्य छा ५, ३, ६; वृ २, ५, १३; -याः तै २, ८, १; छां ५, १, ४; -पाणाम् वृ ६, २, ६; -पे वृ २, ५, १३; गी ४, १३; -पेभ्यः स शार्ति^०.

मानुगी- -गी गोउ ६३; -पीः तै ३, १०, २; व ४६०; २ऽऽ^०; -गीम् गी ९, ११.

मानुप-प्रणव- -वः ना १७७
मानुष्य^० -प्यः क १, १, २७; १योत ११०; १अव १८; सु २९४; ११; गु ८४; भव २, २६; -व्यम् क १, २, २; वृ १, ४, १०; व ६; -व्याः क १, २, ३; सुं २, १, ७; तै २, ३, १; छां २, ९, ३; वृ १, ४, ३; ९; १०; ५, २; ६; ३, ८, १; ५, २, १; २, ८, १; मना २, २, ८^०; नि ७; २२; सुह ३; कह १६; गोउ २२; ६२; सर २, ६९; नापू ५, ३३^०; सार २, ५, ६; २७४; ८; गु ३०; गी ३, २, ३; ४, ११; -व्याणाम् छां ७, ६, १; वृ १, ४, १०; १६; ४, ३, ३३; ६, ३, ६; मै ४, ४, ११; मैत्रि ६, ३४; वसू ८; ऋचि २; त्रिवा २, ५, ८; ६६; गी १४; शां १, ४; पाशु १, २७; पत्र २;

त्रिता ५, ३; मा १९; शा १; भव ३, १४; अवि २; गी १, ४४; ७, ३; -प्यात् शा १८; -प्यात् छां ७, २, १; ७, १; वृ १, १, २; ४, १६; वृपू ५, १५; पा२, २; १शिशं ६९^०; २शिशं ५९^०; वउ ५, १०; -प्याय कौ ३, १; -प्ये क १, १, २०; -प्येभिः क २, १, ८^०; -प्येभ्यः छा २, २, २; ४, ९, २; मना २, ६, ७^०; -प्येषु प्र ५, १; वृ १, ४, १५; तै ६, १७; गोउ ६३^०; गी ४, १८; १८, ६९; -सैः क १, १, २५.

मानुष्य^० -प्यः सांका ५३^०; -प्यम् वरा २, ५.

मानुष्यक^० -कम् शि ६, ११३; -कैः वृ ४, ३, ३३.

मनुष्य-काम- -मान् छां १, ७, ८; -मानाम् छां १, ७, ६.

मनुष्य-कृत- -तस्य मना २, ५९^०.

मनुष्य-गन्धर्व- -र्षाणाम् तै २, ८, २^०.

मनुष्य-लोक^० -कः वृ १, ५, १६^०; ३, १, ८; -कम् प्र ३, ७; ५, ३; वृ ३, १, ८; -कै गी १५, २.

मनुष्य-श्राद्ध- -द्धे नाप ४, ३८.

मनुष्या(व्य-आदि- -दीनाम् योचू ७२.

मनुष्या(व्य-अ)धिकार- -मनुष्याधिकार-न्व- -स्वाव प्रसू १, ३, २५.

मनुष्या(व्य-अ)ध-नावा- (गो-आदि- -दिषु शु ३, २.

सन्तव्य- -व्यः वृ २, ४, ५; ४, ५,

६; ऋचि ११; त्रिता ५, ११; अवि ११; गी ९, ३०; -व्यम् प्र ४, ८; सुवा ५, ६; ९; तै २, ३६; -व्ये सुवा ५; त्रिता ५, १७.

मन्त्र- -न्ता प्र ४, ९; छां ७, ८-९, १; वृ ३, ७, २३^०; मै ५, ७; मैत्रि ६, ७; ११; त्रिता ५, १; २आ २; -न्तारम् वृ ३, ४, २; कौ ३, ८; -न्तुः वृ ४, ३, २८; -न्तु वृ ३, ८, ११^०.

मन्त्र^० -न्त्रः मैत्रि ६, १६; सुवा ६; तै २, २; ३; ६०^०; ७०^०; ७१; ७२^०; ७३; ६, २१; नाद ५; १योत ६४; रार २, २७; ३८; ३९; ४१; ४८; ५४; ६२; ६४; ६५; ६७; ६८; ७०; ७४; ७६; ७७; ३, १^०; रापू १, ११; १२^०; ४, २; ३; राउ ५, ५; ६; ११; २७; योशि १, १२९; १३१; २, २०; अक्ष १६; भ २, ४^०; २८; जाद २, १६; गोउ १६; ऊ ६३; २; नापू २, ३; १०; नाउ ३, ३; वृष ८४; १३; सार २४४; ३; शि १, २०; व ४६३; २०; तारा ८४; ११; अद्वैता १०; पित्र २, ३; गी ९, १६; -न्त्रम् मैत्रि ६, ९; पर्व ४; वृपू २, १७^०; तै ३, ५२; ७४; ५, १४; ५३; प्या ६२; ६३; ऋचि ६३; १योत २१; नाप ३, ६^०; ८६; योचू ३२; ३३; रार २, ४७; योशि १, ७०; २, ५; ८; ६, ५४; अव्य ६; दे १२; रह २५; जाद ८, ३; गोपू २९; वरा ५, १०; ७०; योरा ३; इ १४; २०; सुला १, ३७; २, २०; नापू ३, १८; सार २४६; १७; २७६; ७; शि १, २१; ५, ४४;

a) धा अर्थः १ =समयमानविद्येय- । b) वैपश् यद. । c) त्रि १०, १९१, १५ । d) ऋ १०, ८३, २ । e) तैआ १०, २१, १ । f) ऋ १, १६४, ४५ । g) मा ३४, ६ । h) ऋ ३, २९, २ । i) तैआशा १०, ६७ । j) सकृत् 'मानसेषु' इति आन. । k) पा ४, ३, १२० । l) 'मानवकः' इत्यपि पाठे. । m) पा ४, २, ३९ । n) मा ८, १३ । o) सकृत् 'चक्रः' इति श्रव्या. । p) ऋ १, ४०, ५ ।

हे१४:गुणो४२१:१;अहंभा१९;
 -न्त्रस्य रा२२,४१; रापू ४,११;
 योशि २,५; सर२,१-१०; -न्त्रा:
 प्र ६,४; छां ७,४,१,२; ५,१;
 २६,१; काला ४; द १; योशि
 ३,७; अव्य २; पं२; ह ३; १३;
 सौ १, ३; सु २,२,१२; इ १९:
 २२;२०:१; २प्र ३३:१०;१२;
 ३४:१०९९; नापू २,२; भव १,
 १६; -न्त्राणाम् छां ७,४, २;
 वृजा ६,१२; वृपू ५,१०; रा२३,
 १; रापू ४,५; दे १७; रुजा ३,
 १; २प्र ३३:१०; तारा८४: ८;
 ११; -न्त्राद् छां७,३,१;१४,१;
 रापू४,४९; ह २;१२; तारा८३:
 १; -न्त्राम्याम् मुद्र१,८; -न्त्रेण
 जा ४; व्यास ३; वृजा ३,३;९;
 १०;२०;२४; २६;२९; ५, १;
 ६,१;५;६; नाप ३, ७;६,१;
 द १;४; ६; ९; ११; त्रिवि ५,
 १२; रा२, ५३; रा३ ३, ६;
 ५,१६;२५; मुद्र १, ३;४; ७;
 ८; पप४१८: १२;३२;म१,३;
 ६; या १, १; सर २, १-१०;
 सूता ६,१०; शि ५, ३४; तारा
 ८४:१०; -न्त्रेषु सुं १,२,१; छां
 ७, ४-५, १; रा२ ५, १४; वृप
 ८५: १७; -न्त्रैः वृजा २, ११;
 ४,१; वृपू२, २;४,१४;१५,३३;
 ४,१६; वृ३ ३, ५; शु १, १६;
 ४ १५७; रा२ १, ९; २, ३८;
 रा३ ४-५, १; वा ३७; २संन्या
 १५:१; त्रिता २, ७१; ७३; ४,
 १४;३७; म२,२१; रुजा १, १;
 ता ३, १; का६; नार६; वि १०;
 शि २, २६; सिशि ३८३: ८;
 व्याप ३९९:१८;२०.

मान्त्र- -न्त्रम् शि ५,१,१.

मन्त्र-क- -कः वृजा ३, १५.
 १मन्त्र-कल्प- -ल्पः २प्र ३६:
 ३९०.
 मन्त्र-कृत्- -कृत् इ ११:२०.
 मन्त्र-कोटि- -टिसु(१पु४)
 त्रिता ३, ३४.
 मन्त्र-ग्राम- -मम् रा२ २, १.
 मन्त्र-चिन्ता- -न्ता मैत्रे २,
 २१.
 मन्त्र-जप- -पेन रा ४२३:१२.
 मन्त्रजपा(प-अ)धिकरण-
 मन्त्रजपाधिकरण-न्या-
 साधिकरण-स्तोत्राधिकरण-
 पूजाधिकरण-मैथुनाधिकरण-
 -णैः रा ४२३: ९.

मन्त्रजपा(प-अ)धिकार- -रः
 नाप ७.

मन्त्र-जापिन्- -पिनः कालि
 ४०२: ३.

मन्त्र-ज्ञ- -ज्ञः द्व ५.

मन्त्र-तन्त्र-व्यापार- -रः नाप
 ५, १; १संन्या २, ५९.

मन्त्र-तन्त्रा(न्त्र-आ)दि-

संग्रह- -हम् ते ५, ८२.

मन्त्र-तस्य(>) वृजा ३, ८; त्रिता
 २, १६.

मन्त्र-तारक- -कम् विद्या १.

मन्त्रतारक-ग्रहम्- -ह्य
 विद्या १.

मन्त्र-देवता- -तानाम् तारा
 ८४: ८.

मन्त्र-द्वय- -यम् रापू ४, ५५;
 -येन नापू ३, ५.

मन्त्र-भाषक- -कः सिशि
 ३८२: ८.

मन्त्र-पद- -दानि व४३५:१६;
 -दैः र६ २४.

मन्त्र-पाठक- -कस्य रवा १७.

मन्त्र-पारायण-
 मन्त्रपारायणिन्- -णी पारा
 १३.

मन्त्र-पूत- -तम् म १, १०; इ
 १३: ६; -तैः त्रिवि ६, २५.

मन्त्र-भक्त- -क्तः द्व ५.

मन्त्र-भेषज- -जैः योशि १,
 ६१.

मन्त्र-मय-
 मन्त्रमय-शरीर- -रम् त्रिवि
 ६, २१.

मन्त्र-मातृ(क>)का- -०के
 अक्ष १५.

मन्त्र-यन्त्रा(न्त्र-आ)ख्य-
 गायत्री-प्राण-स्थापन- -न्त्रम्
 त्रिवि ७, ४८.

मन्त्र-यन्त्रा(न्त्र-आ)दि-
 किलिप- -यैः सूता १, ४२.

मन्त्र-योग- -गः १योत१९;
 योशि १, १३२; योरा १; ४;

-गात् योशि १, १३२.

मन्त्र-रत्न- -त्नः द्व ३.

मन्त्र-रहस्य-इलोक- -का: द१.

मन्त्र-रहित- -तम् नाप ३, ७.

मन्त्र-राज- -जः द १३; रा२२,
 १; ७-९; २५; ४०; ५०; ५, १; रा३
 ५, ६; दशा १, ५; नापू २, ३; -जम्
 वृपू १, २; २, १; ५, ८; १२-१८;

रा३ ५, ४; कालि ४०१: १२;
 ४०२: ५; ४०३: १७; वृपू १, ४;
 ५; ६; ३; २; व३ ५, ३; ५; ९; १६;

२०, -जस्य वृपू ३-४, १; ५, १;
 ११; व३ ६, २; -जाय व४६३:

२०; -जेन वृ३ २, ११.

मन्त्रराज-क- -कः रा२ २,
 १०५.

मन्त्रराज-जापक- -कस्य
 व३ ५, २७.

a) 'मन्त्रः' इति गोत्रा १, १, २४। b) 'भङ्गीकरोत्' इति निवा. संति. अन्त्या। c) 'न्त्रः क' इति गोत्रा
 १, १, २७। d) पा. ? दनि. सोपः द.। o) =योगप्रभेद-। f) 'न्त्रं वी' इति तान्त्रि.।

मन्त्रराजा(ज-अ)श्मक-
-कम् ६ ९.
मन्त्रराजाश्मक-स्तव-
-चम् रार १, ९.
मन्त्रराजा(ज-अ)प्यापक-
-कस्य वृप् ५, २०; -केन वृप्
५, १९.
मन्त्रराजा(ज-अ)र्ण- -र्णान्
राप् ४, ५१.
मन्त्र-रूप- -पाः नाप् ५, ४.
मन्त्र-वर्ण- -र्णात् वृत् २, १४.
मान्त्रवर्णिक- -कम् वृत् १,
१, १५.
मन्त्र-वर्ष- -वैः सिशि ३८२: ७;
-वैः सिशि ३८२: ६; ३८३: ८.
मन्त्र-विद्- -वित् छां ७, १, ३;
अना २२; वृजा ३, २४; ३०; ६
१४: २३.
मन्त्र-विभाग- -नाः कालि ४०१:
१२०.
मन्त्र-शक्ति-नियामक- -कम् पं
१०.
मन्त्र-शास्त्र-
मन्त्रशास्त्र-क^{१०}- -कम्
नाप् ५, ३८.
मन्त्र-संयुक्त- -कैः चू १३.
मन्त्र-संस्कार-दग्ध- -वधम्
वृजा ५, ७.
मन्त्र-संस्तुत्य- -स्तैः मन्त्रि १३.
मन्त्र-सत्कृत- -तम् शि ५, ३.
मन्त्र-साफल्य- -व्यम् कालि
४०३: १४.
मन्त्र-सा(र<)रा- -रा अञ
१, ६.
मन्त्र-सिद्ध- -द्वाः राउ ३, ७.

मन्त्र-सिद्धि- -द्वये वरा ५, ७०;
-द्विः रा ४२३: ११; १२; -द्वे:
१कौल ४: २.
मन्त्र-स्नान- -नम् शि ५, ३३.
मन्त्र-हीन- -नम् गी १७, १३.
मन्त्रा(न्त्र-अ)दि- -दि ते २, ३४.
मन्त्रादि-वत् वृत् ३, ५६.
मन्त्रादि-साधन- -नम्
१योत ३०.
मन्त्रा(न्त्र-अ)नुष्ठान- -नम् अञ
१, ८.
मन्त्रा(न्त्र-अ)न्तर- -नम् नाप ३,
७७.
मन्त्रा(न्त्र-अ)भ्यास- -सः जाद
२, ११.
मन्त्रा(न्त्र-अ)घोहन- -नम् ६
१५^६.
मन्त्रा(न्त्र-अ)र्ण- -र्णान् त्रिता
२, १३; -र्णैः रार २, १२; २३;
२९; ३६; ५५.
मन्त्रा(न्त्र-अ)र्थ- -र्थः अद्वैभा
१०; -र्थम् मैत्रि ६, ३४; रार ४,
५; -र्थेन वल ६, ३४.
मन्त्रार्थ-चिन्तन- -नम् भव
५, १८.
मन्त्रा(न्त्र-अ)वृत्ति- -त्तिम् नाप
३, ५.
मन्त्रावृत्ति-विधि- -धिः
नाप ३, ८.
मन्त्रा(न्त्र-अ)श्रय- -नः ६ ५.
मन्त्रा(न्त्र-अ)सन-ना(त<)-
ता- -ताम् त्रिता २, २५.
√मन्त्रि, मन्त्रयस्व नाप ४, ३८;
१संन्या २, १२; मन्त्रयेत् वृजा
३, ३१.

*मन्त्रया-
*मन्त्रयां/क, मन्त्रयां-
चक्राते वृ ३, २, १३.
मन्त्रित- -तम् वृजा ५, १;
६, ५.
मन्त्रिन्- -न्त्रिणः राप् ४, ३;
-न्त्रिणा राप् १, ११; -न्त्री रार ४,
७; राप् ४; ४४; ४९; महा ५,
७९.
मन्त्रो(न्त्र-उ)त्तम- -मः रया ५.
मन्त्रो(न्त्र-उ)पतिपद्- -पदम्
मन्त्रि १०; चू १०.
मन्त्रो(न्त्र-उ)पासक- -कः ना
४; भावो १.
मन्त्रो(न्त्र-अ)पध-गरा(र-अ)-
शिस- -शिपः नाप ४, ६.
मन्त्रो(न्त्र-अ)पधा(ध-अ)ज्या-
(ज-अ)विष-पुरोडास-स्था-
लीपाका(क-अ)दि- -दिभिः
मैत्रि ६, ३६^०.
मन्त्रमान- -नः सुं ३, २, २; मै १,
१; ३, २; मैत्रि १, २; ३, २; ६,
३०; मैत्रे १, १; तल ८, ५; अव्य
४; कुं २७; वरा २, ३७; आपे
७: २; वा ७; -नाः सुं १, २,
१०; वृ ३, ९, २६.
मन्त्र्यु- -न्यवे मना २, ६२^५; -न्युः
मना २, १५^५; ३१^५; ३२^५;
६२^५; ८०^५; व ४५२: १७;
४६०: १^५; ४६१: ३^५;
४६४: २०^५; चू १२^५; कथु ३,
२^५; -न्युम् व ४५२: २०; ४६०:
२^५; -न्यो मना २, ६२^५; व
४५२: २१^५; ४६०: २^५; ३^५;
५^५; ८^५; १०^५; १३^५; १५^५;

a) 'मन्त्र' इति आन. । b) 'मन्त्रं त्रिदध्यात्' इति तान्त्रि. । c) =व्यापकशेष- । d) मन्त्रा^० इति
श्रव्या. । e) 'ज्यमिष पुरो' इति सात. । f) =कोष- वा तदधिष्ठातृदेव- वा । वैप १ यद्र. । g) तैश्चा १०, ६२ ।
h) तैश्चा १०, १४, १ । i) तैश्चा १०, २४, १ । j) तैश्चा १०, २५, १ । k) तैश्चा १०, ६२^५ । l) तैश्चा १०, ६४, १ ।
m) श्र १०, ८३, २^५ । n) श्र १०, ८४, ७ । o) 'स्युत्' इति आन. संदि. । p) शौ ११, ८, १ । q) श्र १०, ८३, २ ।
r) श्र १०, ८३, १ । s) श्र १०, ८३, ३ । t) श्र १०, ८३, ४ । u) श्र १०, ८३, ६ । v) श्र १०, ८४, १ ।

१७९^०; १९९^०; २१९^०; ४६१:
२९^०; न्योः व ४५९; १६.
मन्यु-कृत- -तेभ्यः मना २,
३१९^०; ३२९^०.
मन्यु-पति- -तयः मना २,
३१९^०; ३२९^०.
मन्वान- -नः छां ७, १५, ४; २५,
२; वृ १, ४, ७, ४, ३, २८; -नस्य
छां ७, २६, १.
१मान- -नम् नाद ५४; दत्ता १, ६;
सार २२५; ६; -नेन सार २७४;
१४.
मान-तस(>) पाशु २, ४२.
मान-रूप- -पम् वरा २, १४^०.
मान-लीला- -लायाम् सार
२२६; ११; २८५; ४.
मान-व(त >) ती^१-
मानवत्या(ती-आ)दि- -दयः
सार २२५; ६.
मान-वर्जित- -तः ते ४, ७०.
मान-स्थान- -नम् सार २२५;
५; -ने सार २२६; ७; १३.
माना(न-अ)पकरण- -णम् सार
२२६; ८.
माना(न-अ)पमान- -नयोः गी
६, ७; १२, १८; १४, २५.
माना(न-अ)वमान- -नयोः ते
१, १४^०; -ने नाप ३, ८६; पहं
२^१; -नौ शा १८.
मानायमान-हीन- -नः मैत्रे
३, ४.
मानिम्- -नी क १, २, ६.
मानिनी^१- -नी वि ६.

मान्य- -न्यानाम् मैत्रे १, २^१.
मान्य-स्थान- -नम् सार २२७;
२२.
१मनस्- √मन् द्र.
२मनस्^१-
मनः-शिला^१- -लाम् शि ६, ६५.
मनाक्^१ महा २, ४८; ४, ११७; अक्ष
२, ३९; ४३; ४, ५९; ९२; छाग
२५; १८.
१-४मनु-, मनुज-, मनुष्य-, मनुस्-,
मन्तव्य-, मन्वृ-, मन्त्र-,
*मन्त्रया(-), √मन्त्रि, मन्त्रिव-,
मन्त्रिन्- √मन् द्र.
१मन्त्री^१ वि ५.
√मन्थ्
मन्थ- -न्थम् छां ५, २, ४; ६; वृ ६,
३, १; -न्थे छां ५, २, ४; ५^१; वृ
६, ३, २^०; ३^१.
मन्थन- -नम् छां १, ३, ५.
मन्थयितव्य- -न्थम् व्रवि २०;
अवि २०^०.
मन्थान^१-
मन्थान-भूत- -तेन व्रवि २०;
अवि २०.
√मन्द् (*वधा.)
१मन्द^०- -न्दम्^० शि ७, १२४;
-न्दम्-न्दम् जाद ६, २९.
मान्द- -न्थम् ते ४, २४;
अक्ष ४, १३.
२मन्द^०- -न्दः क १, २, ०; -न्दान्
गी ३, २९; -न्दानाम् सां ५५, ६८.
मन्द-पवन- -नः महा २, २६.
मन्द-बुद्धि- -बुधयः शि १, ३.
मन्दबुद्धि-विमुक्तय-
(कि-अर्थे)- -थम् शि १, ४.

मन्द-बुद्धि-मति- -तिः वि ४^१.
मन्द-वायु- -युः वृजा ६, १.
मन्दा(न्द-आ)दि-पवन-युक्-
-क्तानि राधा ३, ८.
मन्दा(न्द-अ)निल- -लाः अन्न
२, ४३.
√मन्दाय्, मन्दायते इ १५; २२
१मन्द्र^१-
मन्द्रा- -न्द्रा दे ५९^०; ह १५९^०;
सर २, ७९^०; ८९^०.
√मन्दि, मन्द्रयते अरु २८९^०.
२मन्द्र- -न्द्रम् मैत्रि ७, ११; शौ
५२; ४९^०; -न्द्रेण शौ ५२; ३.
मन्द्र-मध्यम-तार-ध्वनि-
-निभिः पप ४१८; २६.
मन्द्र-मध्यम-तालज-ध्वनि-
-निभिः नाप ४, ३८^०.
मन्द्राकिनी^१- -नी गु ११.
मन्द्रार^१-
मन्द्रार-निकुञ्ज- -जाः सार २२५;
९; -जे नार २२६; १३.
मन्द्रार-पारिजात-पुष्प- -प्याणि
सार २६४; १९.
मन्द्रार-पुष्प- -रथैः सार २, ४४; रा
४२५; ९.
मन्द्रार-वृक्ष- -क्षाः सार २२५; ६;
२३३; १४; १७.
मन्द्रारा(र-आ)दि- -दिभिः सत्ता
४, ८.
मन्द्रार^१- -रम् सार २२८; ७; २३७;
१३; २६४; १३; २६८; १६;
२७१; १०; -राणि सार २२२;
१८; २२३; ६; १५; २३७; ५;

a) ऋ १०, ८४, ३। b) ऋ १०, ८४, ४। c) ऋ १०, ८४, ५। d) ऋ १०, ८४, ६। e) तैषा १०,
२४, १। f) तैषा १०, २५, १। g) भा^० इति अच्पा। h) 'पमा^० इति आन। i) 'पमानम् इति आन. संटि.,
अच्पा.। j) तु. टि. मदन्निवा-। k) भन्वा^० इति अच्पा.। l) व्यु. अर्थय १। m) व्यु. ? = अच्पा.। n) निशा. ब्रह्मा.
व पा.। 'भत्र' इति शोधः द. (तु. ताग्रि.)। o) 'मन्थ भद्र' इति आन. ? यनि. नोषः द. (तु. नाद., आन. संटि.,
अच्पा.)। p) विप.। धा. आनस्ये शक्तिः द.। q) या. किति. द.। r) विशेषि.। s) ०^० बुद्धिमं^० इति पा. ? इति.
शोधः द.। t) वै ११ द.। u) ऋ ८, १००, ११। v) ऋ ८, १००, १०। w) तैषा १, २५, ४। x) 'तारध्वनिभिः
इति अच्पा.। y) व्यु. ? = विवदगता-। z) व्यु. ? = शक्तिरोग-। a') व्यु. ? = एह-।

२६७: १; २८४: ३; ४; -रेपु
सार २२३: ८; १३; १४; १६;
१९; २७४: ८.
१-२मन्त्र- / मन्दि / मन्द् द.
मन्मथ^{11a} - यम् श १३.
मन्मथ-कला(ला-आ)दि^b - दि:
काम ८.
मन्मथ-क्षेपाल- ला: निर्वा
२२७: २.
मन्मथ-बीज-युक्त^c - -क्तम् त्रिवि
७, ३९.
मन्मथ-मनो(नस्-उ)न्मादि(न्-
नी- -नि व ४३६: २१.
१मन्मन्त्रम्^d तारा ८४: ८.
मन्यमान-, मन्यु-, मन्वन्तर-,
मन्वान- / मन् द.
*१ममर्- अस्मद्- द.
*२ममर्- निर्मम- टि. द.
१-२मय्य- अस्मद्- द.
मय्यस्^e-
मयस्-विद्- -वि वा ३.
मयो-भू- -सुव: मना १, ११५^o;
-भू: वृ ६, ४, २७५.
मय्युख^f- -न्वा: मैत्रि ६, २६; ३१; -खे
मैत्रि ६, ३५; सावि १०८.
१मय्यूर^g- -रम् शि ६, २०८.
मायूर- -रम् भ्या १०३.
२मय्यूर^h- -रम् वरा ५, १५.
मय्यूर(र-आ)सन- -नम् त्रिज्वा २,
४८; शा १, ३, ११; जा २३, १; ११.
मयूर-कोकिल-हंस-सारथ-विहगा-
(ग-आ)थ- -या: सार २६८: १.
मयूर-पिक-हंस-सारथ-युव- -सा:
सार २६९: १६

मयूर-विष्ट(च्छ्)-शिरस- -रा:
राधा १, १७.
मयूर-वत् त्रिज्वा २, ४७.
मर- / मृ द.
मरकत¹¹ⁱ-
मारकत- -तम् मिशि ३८३: १.
मरकत-गुम्फित- -तानि सार
२४४: २०.
मरणा- / मृ द
मरि(>री)च^{11k}-
१मरीच- -चम् शि ६, ७३.
मरिचा(च-आ)ढ^{11l}- -डन शि ६, ७३.
१मरीचि^{11m}- -चय: प्र ४, २; ऐ १, १; छा
२, २१, १; ३, १, १; मैत्रि ६, ३१;
अफ ११५^o; -ची: ऐ १, १; व
४६४: १६५^o.
मरीचि(क>)का- -का योशि ४,
३३.
२मरीचि¹¹ⁿ- -चि: गी १०, २१.
३मरीचि^{11o}-
२मरीच^{11p}- -च: व ४६५: ९.
मरीचक^{11q}- -क: व ४४४: १३.
४मरीचि^{11r}-
मरीच्या(चि-आ)दि- -द्वय: सं ४.
५मरी(चि>)ची^{11s}-
मीची-यायिन्- -यिनाम् गु १५.
मरु^{11t}- -रुप महा ३, ६, -री योशि ४,
१८.
मरु-भू-मात्र- -त्रम् महा ४, ८४;
वरा २, ७२.
मरु-भूमि- -भौ महा ४, ८४; वरा
२, ७२.
मरु-मरीचिका- -का ले ६, ७३.
मरु-शुक्तिका-स्थाणु-रफटिका-

(क-आ)दि- -ची पे १, ४.
मरु-स्थल- -खे योशि ४, १५; अन्न
१, २०.
१मरुत्^{11u}- -रुत् ले ५, १०२; योशि
६, ७१; यो १, १५; १६; -रुत:
छां ३, ९, १; वृ १, ४, १२;
मैत्रि ७, ३; अ १; वृ २, २;
सुवा ६; वृ ३, ५; नाप ४, २८;
त्रिज्वा २, ११३; योशि १, १२४;
गोड २६; गार ४०८: ७; मी ११,
६; २२; -रुतम् योचू १०७; -रुता
प्या ६६; त्रिज्वा २, ६५; योचू ३८;
-रुताम् छां ३, ९, ३; ४; १योत
२६; त्रिज्वा २, ८८; नी ३, ४; गी
१०, २१; -रुद्रि: मना १, ११५^o;
अरु ५५^o.
मारुत- -त: मैत्रि ७, ११; अना
३८; शां १, ४; ७, ९; ४०;
महा ५, ११९; योशि १, ३०; यो
१, ७५; वरा २, ८०; सार २२९: १;
७; भव २, ३९; गी २, २३; -तम्
मैत्रि ७, ११; अता १९; क्या
७०; १योत ९६; त्रिज्वा २, १४०;
१४२; शां १, ७, ५०; योशि १,
८२; यो १, ३३; जा ६, १९; ७,
६; -तस्व वरा २, ८०^o; -ते शां
१, १०.
मारुत-क्षय- -ये वरा ५, ५.
मारुता(त-आ)त्मजा^{11v}- -०ज
सु १, १, १२.
मारुति^{11w}- -ति: सु १, १, ४; २,
१; २, १, १; -०ते सु १, १, ४६;
२, २, ४; ६३; ७१.
मरुज-जय- -य: योशि १, ८०.

a) व्यु: ? = कामदेव- । b) पूष. चीजाक्षर-विशेष- । c) पा. ? 'मत्तं वं मन्त्रम्' इति शोध: द. ।
d) वैपश् यद. । e) श्र १, ०९, १ । f) श्र १, १६४, ४९ । g) = किरण- । वैपश् यद. । h) = आत्मनविशेष- । i) पा. ?
यनि. शोध: द. । j) व्यु: ? = मरिणविशेष- । k) व्यु: ? = मिरच- । l) उप. = परिमाणविशेष- । m) तैत्रि १,
२७, २ । n) तैत्रि ४, ३९, १ । o) व्यु: ? = मरुदेवताविशेष- । p) व्यु: ? = राक्षसविशेष- । q) व्यु: ? = प्रजापतिविशेष- ।
r) व्यु: ? = अश्वत्थविशेष- । s) व्यु: ? । t) = वायु- वा तदधिष्ठातृदेव- वा । वैपश् यद. । u) श्र ३, ४७, २ । v) श्र १०,
१५७, ३ । w) म^० इति अज्ञा. ।

मरुत्-वत्(=°वस्)-०वःव४६०ः
 १३५°; वन्तम् शौ ५३: २२५^b.
 मरुवतीय^१-यम् छाग २३:
 ११; २४: १३.
 मरुद्-सुत^१-०त सु २, २, ९.
 मरुद्-अभ्यसन-नम् शां १, ७,
 ३७.
 मरुद्-आरमन्-रमना शि ५, ३४.
 मरुद्-नाग-णा: व ३.
 मरुद्-भेद-दम् त्रिधा २, ८८.
 मरुद्-वृ(ध>)धा^१-०धे मना १,
 १३५°.
 रमरुत्^१-रुव मैत्रि ६, ३०.
 मरुद्-नामन्-अः(इम्ना^१) मै २, १;
 मैत्रे १, ४, १; -आ मैत्रि २, १.
 मरुत्त^१-
 मरुत्-भरत-प्रमृति-तयः मै १,
 ५; मैत्रि १, ४.
 मर्कट^१-टः अग ३, ६.
 मर्कट-क्रम-मः योशि १, १४०५^१.
 मर्त्य-✓मृ द्र.
 मर्दन-✓मृ द्र.
 मर्दल^१-
 मर्दल-ध्वनि-निः सौ २, ८^b.
 मर्दल-शब्द(ब्द-ग्रामा>)-
 मः नाद ३४.
 मर्मन्^१-मणि अक्षि ५; निरु २, २.
 मर्म-जहा(हा-अ)नुकृतन-नम्
 लु १३^१.
 मर्म-प्राण-विमोचन-नम् लु १४.
 मर्म-दात-तम् गर्भे ५.
 मर्म-स्थान-नेषु त्रिधा २, १२९;
 शां १, ८.
 मर्म^१-यां: वृ ६, ४, ४; व ४३७।

२०५^b.
 मर्यादा^१-दया सार २६८: १३; -दा
 अध्या ४२.
 मल^१-लम् ते ५, ९९; महा ५, ११०;
 १३१; १८५; १८६; योशि ५,
 २६; १संन्या २, ४८; यो २, २८;
 वरा ३, ५; -ला: अना ७; -ले
 यो १, ६३; -लेन महा ५, ११०;
 गी ३, ३८; -लैः गौ ३, ८^१; मै
 ३, ४^१; मैत्रे १, ३; १संन्या २, २९.
 मल-जाल-लानाम् ध्या ९१.
 मल-भागड^१-
 मलभाण्ड-वत् अध्या ८.
 मल-मांस-
 मलमांस-मय-यम् अध्या ६.
 मल-मूत्र-प्रलेप-पेन १योत ७४.
 मल-मूत्र-रहित-ता: सार २७४:
 २१.
 मल-मूत्रा(त्र-आ)दि-दीनि सार
 २५९: १४.
 मल-स्नान-नम् वृजा ४, १^१.
 मला(ल-आ)कुल-लम् योचु ९४.
 मलिन, ना^१-नः गौ ३, ८; जाद ५,
 १४; -नम् गौ ३, ८; -ना अन्न
 ५, ५; सु २, २, ३; ६१^१; ६२;
 सार २८२: ९५^१; -नानि शि ७,
 ५०; -नाम् वृजा ३, १.
 मलिन-चेतस-तसि सांस् ४,
 २९.
 मलिन-दर्पण-
 मलिनदर्पण-वत् मांस् ४, ३०.
 मलो(ल-उ)द्वृत्-तम् अध्या ६.
 मलो(ल-उ)द्वसस-तसम्, -सा:
 वृ ६, ४, ६.

म(ल्लक>)ल्लिका^१-
 मल्लिका-कुडमल-लैः रा ४२५:
 २; ३; ११.
 ✓मश
 मशक^१-कः छां ६, ५, ३; १०, ३;
 अन्न १, ४३; -के सुवा १३; -केन
 वृ १, ३, २२; ते ६, ८६; महा ४,
 ६४; -कैः १योत ३३.
 मसूर^१-रा: वृ ६, ३, १३.
 मसूर-मात्र-त्रम् शि ६, ९९.
 मस्कर-
 मस्करि^१-री १संन्या २, ७२; कर्
 ५; कथु ३, ५.
 मस्तक^१-कम् वृजा ४, २६; नाद
 १^१; यो ३, ११; -कात् वृजा ४,
 १; यो २, ३७; -के ध्या ४६;
 १संन्या २, ५३; वि १३; १८.
 मस्तक-नात्र-त्रेषु वृजा ६, ७.
 मस्तक-पर्यन्त-न्तम् जाद ४, १०.
 मस्तक-लोचन-धृति-प्राण-वदन-
 कण्ठ-बाहुद्वय-हृदय-नाभि-गुण-
 पायु(यु-ऊ)र-जानु-जङ्घ-क्षेपु
 सौ १, १^१.
 मस्तक-स्था(स्थ-अ)मृता-
 (त-आ)स्वाद-दम् ब्रवि २२.
 मस्तिष्क^१-ष्कात् अक्षि ६, ७५^१.
 ✓मह^१(यथा.)
 मह-महे मना १, १२५^१.
 मह^१-५^१हः मैत्रि ६, ३८; मना २,
 १२, २; शौ ५३: १७.
 महत्^१-हत्क १, १, २३; २, ११^१;
 सुं २, २, १; छां ५, २, ४; वृ १,
 ४, १५; ५, ४, १^१; ६, ३, १; धे
 ४, १९५^१; कै १, १६; मना १,

a) श्र १०, ८४, १। b) श्र ३, ४७, ५। c) श्र १०, ७५, ५। d) व्यु:। =वृषविशेष-। e) पा:। वनि.
 जोष: द.। f) पैपरी यद.। g) व्यु:। =वायुविशेष-। h) महल^१ इति अग्न्या.। i) 'नुकीर्त^१ इति निशा. वनि. सोध:
 द. (वृ. अग्न्या.)। j) =मनुष्य-। पैपरी यद.। k) श्र १, ६, १। l) 'आमयैः' इति सात.। m) मलो. कस.। n) पा ५,
 २, ११४। o) व्यु:। =पुष्यविशेष-। p) पा ६, १, १५४। q) व्यु:।। r) 'निरः' इति अग्न.। s) 'द्वयामि^१ इति
 अग्न्या.। t) शौ १०, ३, २६। u) श्र १०, ९, १। v) श्र ४, ५८, ३। w) विप. नाव. येति वृत्वा यत्रा. पैपरी यद.।
 x) वृ. निता.; पैपु. शं. प्रवृ. शोमम^१ इति। y) मा ३२, ३।

२५; २, १३, २५; म२; ३, १२;
ते २, २१; ५, ९९; १०१; नृउ ५,
३; लु १०; सुवा १३; ध्या ४०;
त्रिवि २, १४; नाप ५, १; त्रिना
१, ३; मं १, ३, ४^६; २, ३,
३; श २४; पां १, ७, ३^६; पै ३,
१; महा ६, ८१^६; योशि १, ७९^६;
अव्य ७; अक्ष १, ४०; अघ्या
६५; त्रिता ५, २०; रुजा २, ६;
८; गोउ ४०; व २५; इ ११; ३;
२ प्र३३; ६१^६; ३६; सुता १,
३७; २, २०; यु ६२^६; रा ४२४;
४; ४२५ : १३; शि २, १६; ३,
१४; ४, ११; ६, १०४; २४१;
२७; गी १, ४५; ११, २३;
१४, ४; हतः क १, २, २०५^६;
३, ११; १५; २, ३, ७; छां ६, ७,
३; ५; ११, १; वृ २, ४, १०;
४, ५, ११; श्वे ३, २०५^६; मना
१, १५^६; २, १२, १५^६;
मैत्रि ६, ३२; सुवा २; नाप ९,
१३५^६; १८; त्रिना १, ३; श
१८५^६; त्रिवि २, १४; ७, १७;
शां ३, १^६; पै ३, ४; महा ३,
२०; ४, ७१५^६; गोउ ४०; त्रि ७;
नो ३, ३५; नाउ १, ७५^६; पा ९,
३५^६; रशिसं १०; शि ६, १४९;
२२१; २२३; गु४२; सांसुर, ६१;
६, ६६; गी २, ४०; हता गर्भ४;
ते १, १९^६; शि ६, १८०; गो४, २;
हताम् सुवा १५^६; योचुर १०७,
अव्य २; अक्ष १, ५४; हति क
१, १, २९; ३, १३; ए २, १;
अशि ४, १३^६; २४; सुवा २;

नाद. ३६; पै ३, १; वडु ३१६;
५; १६; शि ४, ६३; ६, २७१;
निव २, ५; गी १, १४; हते
मना २, ५५^६; गोपू ४२; चार १०;
सार २५७ : २३; २७५; १९;
हन्निः ते ५, ८७; अक्ष १, ५१;
शि ७, ९९; हान् क १, ३, १०;
२, ३, ७; तै ३, ६, १^६; ७-९,
१^६; १०, ३; छां २, ११-२०,
२^६; वृ ४, ४, २०; २२; २४;
२५; श्वे ३, १२; कै २, १; मना
१, १०५^६; २, १३, २५^६; कौ १, ७;
बुजा ६, १२; वृ ५, १०; वृउ
४, ४; ५, १; २; सुवा २; तै ३,
१७; ४, ६३; ५, १०२; नाद ३३;
त्रिवि १०२; योचुर ११५; सा ५;
अता ११; रापू २, २^६; राउ १,
३, ५, ४; पै ४, २३; महार, १५^६;
४, २६; ५, ८७; अव्य २; अक्षि
१; पाशु २, २१; प्रा २, १^६;
रुजा ३, १; च २१; ३; शौ ५१;
९; सार २४० : १९; २४१; ५;
शि ७, १२३; सिशि ३८०; ११;
यु ४१; वउ २, १२^६; ३१; भव
१, ३९; सांसु १, ६१; सांका
२२; गी ९, ६; १८, ७७; हान्ताः
नाप ५, १०; त्रिवि १, २; महा
४, २०; अक्ष ४, २४; हान्ताम्
क १, २, २२; २, १, ४; वृ ४, २,
१; छां ४, ३, ७; श्वे ३, ८५^६; १९;
मना १, १५^६; २, ५२५^६; काला ८५^६;
नृउ ६, १; सुवा ११^६; १५; नाप ९,
१४; १५; १८; त्रिवि ४, ५५^६; महा
४, ७१५^६; जाद ४, ६२, पा ७, ५५^६;

२सिसं १५५^६; २८५^६; वउ ४, ३०;
भव २, ४६; हान्ति त्रिना २,
१३३; जाद ६, ४५; शि २, २१.
महती- ती के २, ५; वृ ४,
४, १४; मैत्रि ६, ६^६; नाद ११५^६;
त्रिना २, ११२; रुजा २, ९; गार
४०८: १०; ती: मै ५, ६१^६; तीम्
मै १, ५; मैत्रि १, ४; वृपू ३, २; ३;
४, १२; यु ५१; वपू २, २^६; गी १,
३; स्या वउ ६, ४५; स्यै त्रि १२.
महचू-छन्द- न्दा: वउ ३, २८;
-न्दै: वउ ३, ५७.
महचू-छैले(ल-द) न्द-नील-
-लम् ते ६, ८५.
महचू-त्तव- -त्तम् गु ७; वउ
४, १०.
महत्तरवा(त्तव-श्र) भिमान-
महत्तरवाभिमानिन्-
-नी पै १, १२.
महचू-त्तम- -म: पाशु २, १६.
महचू-त्तर, रा- -र अक्ष ५;
-रम् मैत्रि ७, ११; त्रिवि ७, १७;
-रा त्रि १.
महचू-त्ता- -ताम् छां ७, ६, १९.
महचू-त्तव- -त्तम् ते ६, २७; त्रिना
१, २८; त्वाव वउ ७, २; ९^६.
महत्तरवा(त्तव-श्र) दि-गुण-
-णै: महा ६, ७४.
महचू-पद- -दम् महा ५, २६;
राधा १, १३.
महचू-संसार- -र: ते ५, ९०.
महचू-अहंकार-पृथिव्य(वी-श्र)-
पू-तेजो-वाद्या(यु-श्र) काश-
महचू-अहंकारपृथिव्यहेजोवा-
द्याकाश-श्व- -श्वेन नि १२.

- a) तैश्चा १०, १, २ । b) तैश्चा १०, ११, २ । c) 'विदुः' इति निसा । d) 'हा' इति निसा ।
e) 'भवेत्' इति श्रव्या । f) 'महः' इति श्रव्या. मंटी । g) 'परम्' इति श्रान. । h) =व्याहृतिविशेष- । i) मा
३२, ३ । j) तैश्चा १०, १०, १ । k) तैश्चा १०, १, १ । l) 'हताम्' इति श्रव्या । m) 'तीम्' इति श्रव्या । n) 'हति
इति निसा. यनि. शोषः द्र. (तु. श्रव्या.) । o) तैश्चा १०, ४, १ । p) तैश्चा १०, १, १० । q) 'हा' इति श्रान. । r) तु. सध.
गप. ५१००g । B) मा ३१, १८ । C) तैश्चा १०, १, १ । U) नृ १, ११४, ७ । V) 'महतीः' इति सात. । W) =माशविशेष- ।
X) 'हतः' इति निसा. यनि. शोषः द्र. । Y) श्रवाभावः उत्सं. (पा ६, ३, ४६) । Z) 'स्वम्' इति BCH. ।

महद्-अहंकृति-तमस्-भोभिः
त्रिवि ६, ३.

महद्-आ(ख्या)क्य-क्यम्
सांस् १, ७१; -ख्या वै १, ११.

महद्-आदि-दि वरा ३, १५;
सांका ८; -देः सांस् १, १२९.

महदादि-कम-भेण सांस्
२, १०.

महदादि-विशेषभूत-
पर्यन्त-न्तः सांका ५६.

महदादि-समष्ट्या(ष्टि-आ)-
कार-रम् त्रिवि ६, ३.

महदादि-सूक्ष्म-पर्यन्त-
न्तम् सांका ४०.

महद्-आद्य, घा-द्यम् मैत्रि ६,
१०; -घाः गोच ६७ : १४;
सांका ३.

महद्-आतन्द-
महदानन्द-दायक-कः दे

१४.
२महद्-आतन्द-न्दम् वरा
२, ६२.

महद्-उपराग-गात् सांस् २,
१५.

महद्-दीर्घ-
महदीर्घ-वत् प्रस् २, २, ११.

महद्-देह-हाः वउ ३, २७.
महद्-द्युति-कर-राय मना
१, ७५^१.

महद्-महन्-ह्य गी १४, ३.
महद्मह-दैव(ल्य)त्या-

-स्या अ १^०.
महद्-मय-यम्क २, ३, २.

महद्-भूत-वम् वृ २, ४, १२.
महद्-वत् मन् १, ४, ७.

महा^१ वृ १, ११^१; सार २, ६२^१.
मह(हा-आ)पिञ्-पिञ्जः

प्रा ४, १.

मह(हा-क)पिं-पर्ययः वस्
१२; पौ ४, ३; द १; २प्र ३६: ७. पित्र

४, ९; गी १०, २; ६; -पिं: श्वे ३,
४५^१; ४, १२५^१; मना २, १२,
३५^१; म २, ६; -पिंभिः वृजा ५,

४; नाप ५, ३; नापू ४, २५;
-पर्यागम् सी २९; गी १०, २; २५

महर्षि-वेद्य-द्यम् मं १,
३, ६.

महर्षि-सिद्ध-संघ-घाः
गी ११, २१.

महा-कपि-पे सु २, २,
१६.

महा-कर्तु-र्ता अत्र १, १८.
महा-कल्पा(प-अ)न्तरो-

(र-उ)ज्व-वः गु २४
महा-कल्पा(ल्प-अ)म्बु-

-म्बुना वरा २, ३६.
महा-काय-यः २योत १, २.

महा-कारण-णे वृ ३, १०
महा-कारण्य-रूप-

महाकारण्यरूपि(न्) -
णी-णीम् दे १६.

महा-काल^१-लः शि १, ४;
गु ७७; पो २; -लात् शि ७,
१३१; -लाय पारा ३; ८; -ले

शि ६, १८९.
महाकाली^१-लि

व ४३६: १८; २०.
महाकाल-मि(य)या-

-ये हंपो ५; १६.
महाकाल-भैरव-वः

कालि ४०३: ११.
महा(दा-आ)कादा-दा: अक्ष

५, ७७; -दाय मं १, २, १३; ४,
२; ३; अता ७; -ने अथा ७;

वरा २, ५०.

महा-कुण्डलि(न्)नी^१-
नी त्रिता १, २१; -नीम् त्रिता

१, ८५.
महा-कुल-ले वरा ४, ४०.

महा-कृत्या-ले व ४५८:
१९.

महा-क्रीडा-डायाम् सार
२८८: ९.

महाक्रीडा-पर-रे सार
२८६: १०.

महाक्रीडा-सुख-द-
दाय सार २६१: ९.

महाक्रीडा-स्थान-न्म्
सार २८१: १८.

महा-क्षेत्र-त्रे शोश १,
१३६.

महा-क्षेम-मम् व ४३६: २.
महा-क्षोभ-मम् वं

३११: ४.
महा-खग-नाः प्रवि १९;

योच् ४८; वरा ५, ६.
महा-खर-रः ते ६, १३;

९३.
महा-ख(ल)ला-लाम्

वृजा ३, १.
महा-गण-गेन व ४३४:

२१.
महा-गणपति-तमे व

४५६: ५.
महा-गति-तयः पित्र १,

१; ५.
महा-गर्ह^१-गर्ह १०;

व ४६५: ६; -दा: गर्ह २; -दाय
गर्ह १०.

महा-गुण-गम् शि ६,
२८१; ग्या: महा ४, १७.

a) आयाभावः उर्मं. (पा ६, ३, ४६)। b) वस.। c) वस.। d) 'हापु' इति तेषां १०, १, ७।
e) महदे^० इति खान.। f) कम. वग. च पूर. पुंयद्वाय भाष्यं च द. (यक. पा ६, ३, १४; ४२; ४६)। g) मन्वान्तगतयोः
परयोः पूर्वाशः द.। h) तेषां १०, १०, ३। i) = वैगं.। उप. = ३काल-।

महा-गुहा(हा^a)-
 -हा(हा^a)म् योशि ५,६०.
 महा-गृह- -हम् महा ३,
 २८.
 महा-ग्रास- -साय अशि
 ३,८; श २३; ३१; च २१:
 २१; वड्ड ३१५: ७.
 महा(हा-अ)कुश-मुद्रा^c-
 -द्रया त्रिता २,६०; -द्रा आथ
 ३९४: १६; ३९८: ४.
 महा-चक्र^d- -कम् वृ५५, १;
 २; ८^१; १०; त्रिवि ७, ३; ६; योशि
 १, १७३; ५, १; वृ५ ८४: ७;
 ८५: २; -क्रे योचू १३.
 महाचक्र-नायक- -कम्
 त्रिता २, ३५.
 महा-चमस^e-
 साहायमस्य^h- -स्य: तै
 १, ५, १०.
 महा-चय- -य: नाप ४,
 २७.
 महा-चित्- -चित् अन्न ५,
 ५५.
 महाचित्-त्व- -त्वात्
 वृ७ ७, २.
 महा-चीन-
 महाचीन-गुरुकपाल-
 पद्ममुद्रा-विराजि(त>)वा-
 -वा तारा ८३: १९.
 महा-चैतन्य- -न्य: वृ७
 २, ३.
 १महा-च्छत्र^f-
 महाच्छत्र-चामरा(र-आ)-
 दि- -दिभि: सुमु १७३^g.
 २महा-च्छत्र^f- -प्रम् शि ६,
 १३८.
 महा-जन- -नेषु नाप ६, ३.

महा-जली(ल-ओ)घ-
 महाजलीघ-मस्य-बुद्-
 बुदा(द-अ)नन्त-सङ्घ-
 महाजलीघमस्यबुद्-
 बुदानन्तसङ्घ-वत् त्रिवि ६, ७.
 महा-जाम्प्र^h- -प्रम् महा
 ५, ८; १३३ⁱ.
 १महा-ज्ञान^j-
 महाज्ञान-पद- -द्म् द
 १३.
 महाज्ञान-प्रद- -दाय
 दत्ता २; व ४५६: ८.
 २महा-ज्ञान^j- -ना: गौ४, ५५
 महा-ज्ञेय- -य: प्रवि १०२^k;
 -यम् मना २, १३, १३^l.
 महा-ज्वाला-मणि-
 महिषो(प-उ)परि-दिय-
 (त>)ता- -०त्ते व ४३१: २०.
 महा(हा-अ)दृहास-धवली-
 कृत-दिग्-अन्त(र>)रा-
 -०रे व ४३१: १२.
 महा-तन्त्र- -न्त्राय व
 ४६३: १९.
 महा-तपस्- -पा: १योत २;
 १३०; २योत १, २.
 महा-तल^m- -लम् राधा १, ४.
 महातल-लोक-ज्ञान-
 -नम् शां १, ५, ५२.
 महा-तीर्थ- -थैम् जाद ४,
 ५३.
 १महा-तेजम्ⁿ-
 महातेजो-मप- -यम्
 गार २७१: ११.
 २महा-तेजस्ⁿ- -जा: शु १,
 १; महा २, १.
 १महा(हा-आ)मन्^o-
 महामन्-वत्- -वात् नाद

१३.
 २महा(हा-आ)मन्^o-
 -०त्मन् अन्न ४, ११; गी ११,
 २०; ३७; -मन: द्वां ४, ३, ६; धे
 ६, २३^q; मैत्रि ७, ११^r; युवा
 १६; महा २, ७१; ४, ४५; वोशि
 २, २२; पं २७; जाद ६, १७;
 ७, ९; ९, ६; यु ७६; गी ११,
 १२; १८, ७४; -मना महा २,
 ३१; -मनाम् महा ४, ७२; पौ४,
 १९; अलि २५; वरा २, ४३;
 -मनि मैत्रि ६, १५; -मने ते ६,
 १०९; महा २, २१; नाउ २, ८;
 ९; -मभि: योरा ५; शि ७,
 १३६; यु ३५; -स्माक १, १, १६;
 श्वे४, १७, ५, ३; महा २, ७७; अन्न
 २, १६; पा ८, २; यु ६०; गी ७,
 १९; ११, ५०; -स्मान: योचू ८१;
 मन्त्रि ८; महा ४, ३५; ५, ३६;
 गी८, १५; ९, १३; -स्मानम् नाउ
 १, २९; चू ८.
 माहात्म्य- -म्यम् वृजा
 १, १^s; ६, १; ७, ५^t; ६^u; रार ५,
 २; राउ ५, १; योशि २, १; सार
 २२६: २३; २२७: १; २५६:
 १४; गी ११, २.
 माहात्म्य-लेशां-
 (श-अं)श- -शाम् श २८.
 महा-न्यायिन्- -नी अन्न १,
 १८.
 महा-त्रिपुर(र>)रा^v- -राम्
 शिता १, ८६.
 महात्रिपुर-भैरवी-
 -०वि हंपो ७.
 महात्रिपुर-सुन्दरी- -नी
 भा ७; व ९; ११; १३^w; -नीम्
 शिता २, ६९; -नीं त्रिता २, ६६.

a) पा. ? यनि. शोध: द. । b) =वेत्. । c) महा^o इति निगा. ? । d) °शदिसर्वं इति पा. ? यनि. शोध:
 द. (द. सद्य. डि. सपदेव-> -वे:) । e) कस. । f) यम. । g) =अवस्थाविशेष- । h) सहृन् 'महादेव' इति
 क्रम्या. । i) तैशा १०, ११, १ । j) कस. । उप. =३त्रिपुर(र>)श- ।

महा-दान-निवेदन-ने शि

६,३४.

महा-दुःख-खात् तुल
७२:२.

महा-दुर्ग-गार्गि दे २१.

महा-दुर्ग-प्रशम(न>)-
नी-नीम् दे १६.

महा-देव-०व स्क १;
योशि १,७; -व: अ २; बाला
१७; मैत्रि २,१; स्क ४; राज ४,
४३; महा १,१^१; पं २७; जावा
२५; कृपु २२; लिं ३१०: ६;
-वम् ऋवि २३; १योत ९९; पं
१८; भ १-२, १; २शिंसं २०;
वपू १,५^१; -वस्य मना १,५५^१;
व ४३३४: २०; -वाय मना २,
२०५^१; श २३; त्रिवि ७,४३;
भ २,४; पं १; -वे सिशि ३८०:
१३; -वेन व ४३२: १९.

महादेवी-००वि मना
२,३४^१; सावि १०; दे १; व ४१८:
२१; -वी योशि २,११; नापू २,
१२; -व्या: दे २१; -व्यै दे ३;
नापू ४,३; व ४६२: ७.

महादेवी-संनि-
धि-धौ दे २२.

महादेव-व-स्वात् वृत्
७,२.

महा-दोष-पात् ग १८.

महा-शुक्ति-कर-राय व
४६१: २०; ४६३: ६५^१.

महा-हुम-म: रार ५, ९^०.

महा-धन-नस्य व ४६१:
२५^१.

महा-धनुर्धर-रा: मै १,

५; मैत्रि १, ४.

महा-धी-धिय: गौ ४,
८९; महा २, ४०; ५, ६१;
अक्ष ४, ११; -धिया महा २,
३१.

महा-ध्यान-परायण-णम्
नाउ १,२६.

महा-ध्यान-योग-नेन
त्रिता १,८६.

महा-ध्वज-जम् शि ६,
१३८.

महा(हा-अ)ध्वर-रै: शि
५,३८.

महा-नदी-दीपु मै ४,२;
मैत्रि ४,२; -द्याम् ग १८.

महा(हा-आ)नन्द-न्दम्
वृत् ८,५; सूता १,२३.

महानन्द-व-स्वात्
वृत् ७,२.

महानन्द-पद-दम्
त्रिवि ७,१३.

महा-नरक-जाल-लेपु
महा ५, १०५.

महा-नरक-साम्राज्य-ज्ये
महा ५, ७६.

महा-नवमी-म्याम् रा
४२५: १५; वउ ६, ४३.

महा(हा-अ)नस^१-सम्
शि २,१७.

महा-नाग^१-गानाम् गठ
२४.

महानागा(ग-आ)दि-
रूप-पाणाम् गठ २४.

महा-नाडी-डी योशि ५,
२२.

महा-नारायण^१-

महानारायणा(ण-अ)-
द्वय^१-यम् सु १,१,३४^१.

महा-निखो(त्य-उ)पस्थि-
(त>)ता-ताम् त्रिता १,
८२.

महा(हा-अ)नुकम्पा-सिन्धु-
-न्धु: हे २.

महा(हा-अ)नुभाव-वात्
गौ २, ५.

महा-नैवेद्य-पीठा(ठ-आ)-
वरण-णानि वउ ६,२५.

महा(हा-अ)न्धकार-र: मै
४,२; -रम् मैत्रि ४,२.

महान्धकारो(र-उ)स्का-
विद्युद्-भग्ग्य(मि-अ)निल-चोर-
शस्त्रा(स्त्र-अ)स्त्र^१-स्त्रेभ्य: व
४३३४: १६.

महान्धप्रोध-घ: छां ६,
१२,२^१.

महा-पथ-प: छां ८,६,२;
-धम् १योत ८३.

?महा-पथिन्-थि योचु^१.

महा(हा-आ)पद्-पत्सु रा
४, १०.

महा-पद-दम् महा ४,
३५.

१महा-पद्म^१-पद्म रा^१,
५०; -घे हंघो ७.

२महा-पद्म^१०-घ: रा^१,
५४; गठ ५.

महा-पद्म^१-क: गठ
१८.

महापद्मक-दूत-त: गठ
१८.

a) तैत्र्या १०,१,५। b) तैत्र्या १०,४,६,१। c) तैत्र्या १०,३,४। d) तैत्र्या १०,१,७। e) °हान् हुं इति ऋष्या। f) ऋ १०,८४,६। g) पा ५, ४, १४। h) =उपनिषद्विशेष-। i) तदाहयोपनिषदोः समारो इय। j) °णाद्म इति निशा। k) वृ. सरथ. टि. सामरक्षा-। l) °हान् न्य° इति निशा। m) निशा. पा। महा-अधि-> -धि इति शेषः द.। n) =फल-। o) =सर्वविशेष-।

३महापद्म^(१)-

महापद्म-निधि- -धये
त्रिवि ७, ४३.
महापातक- -काव मुद्र ४;
-क्रेम्यः कालि ४०३: १०; त्रिवि
८, १९; भ २, ३०; कैः वृजा
५, १४.

महापातक-नाशन^b-
-नम् गु ६; व ४६२: ४.
महापातक-पापिष्ठ-
संगति- -रया राउ ५, १७.
महापातक-युक्त-
-क्तानाम् वृजा ५, १०.

महापातकिन्- -किनाम्
१संन्या २, ४; -की शा २६.
महापातको(क-उ)पपा-
तक- -कानि पो १८; -क्रेम्यः
काला १८; जाबा २७; वि ३३;
-कैः शव्य ७.

महापाताल-पादा(द-अ)-
न्त- -ल(म्ब)म्बा- -म्बा गुट.
महापाप- -यम् ते ५, ९६.
महापाप-भक्ति(न्-)-
नी- -नीम् तुल ७०: ७.

महापापा(व-अ)ब्धि-
दुस्तर- -राव तुल ७१: १०.
महापाप्मन्- -म्ना गी ३,
३७.
महाविशाचिनी- -नीम्
समु ४.

महापीठ- -उम् योशि १,
१७५; ५, १२; -ठे वृउ ३, ९.
महापुण्य- -यम् शि ६,
१९३.
महापुरुष- -यः पदं १; सुद्र
२; तुअ ५; पप ४२०: ११; ह
१९; -यम् नापू १, १४; -पस्य
त्रिवि ५, ११.

महापुरयो(प-उ)पंत-
-तम् लि ३११: ५.

महापूजा-विशेष- -पैः शि
६, १५३.
महा-प्रतिम-लिङ्ग- -ज्ञानि
शि २, २१.
महा-प्रतिस(र)रा- -रा
तारा ८३: १५.

महा-प्रभु- -भुः ता २, ३.
महाप्रभु-त्व- -रवाव वृउ
७, २.
महा-प्रलय- -यः पित्र १,
१४७^(१); -यम् शि ७, ९८.

महाप्रलय-संपत्ति- -तौ
महा ४, ५५.
महा-प्रस्य^(१)- -स्यैः भ २,
२५.
महाप्रस्य-शत- -तम् भ
२, २३^d.

महाप्रस्यशत-मान-
-नैः भ २, २३^d.
महा-प्रस्थान- -नम् कठ १;
कधु २, ३; -ने जा ५; पप४१८:
१६; या २, १.
महा-प्राज्ञ- -ज्ञ तु १, २;
१२; अन्न ४, २५; जाद ४, ४८;
६, ३७, ५०; ८, ६.

महा-फल- -ले त्रिभार, ११.
महा-वन्ध^(१)- -न्धः १योत
२६; ११५.
महावन्ध-स्थित- -तः
१योत ११५.

महा-बल,ला- -ल रार १,
४; ७; २-३, १; -लः रा ४; योशि
१, ४१; १आ १२; -लाय त्रिवि
७, ३७; -ले सावि १०.
महा-बाहु- -हुः गी १, १८;
-हो रार १, ३; ८; योशि १,

२२; मु १, १, ७; गी २, २६;
६८; ३, २८; ४३; ५, ३; ६; द;
३५; ७, ५; १०, १; ११, २३; १४,
५; १८, १; १३.
महा-बोध-दायक- -कम्
पं ५.

महा-ब्राह्मण- -गः वृ २, १,
१८; १९.
महा-भक्ति- -जया योशि
५, ५८.
महा-भय- -यम् व ४३३:
१४; -वाव गोच. ६७: २; तुल
७२: १.

महाभय-निवारण-
-णाय दत्ता २.
महाभय-विनाशि(र) >
नी- -नीम् दे १६.

महा-भाग- -ग नाप ४,
३८; महा २, ३५^f; -नाः सू ३१;
-गाः महा ५, ३६; सार २३०: १५;
२८३: ११; -योग त्रिता १, २२.
महा-भागवत^(१)- -तः
अद्वैभा ९.

महा-भाय-वस- -शाप्
सार २८८: १०.
महा-भागयो(म-उ)द्वय-
-यः सार २८८: १५; -येन सार
२८७: २२; २९१: २.
महा-भाण्डार-वट- -मूल-
-ले द १.

महा-भारत^(१)- -तः अद्वैभा
९.
महा-भीष(ण) > गा- -गे
व ४२७: १९.
महा-भुज-परिवारित-
-स्त-द्वीप- -वाय व ४३३: १८.

महा-भूत- -तः १योत २;
१३०; -न्तः नापू ५, १८; -न्तानि

a) =निधिविशेष- । b) उप, कर्तरी <√नम् (अदर्शन) । c) कस. । =परिमाणुविशेष- । d) महान् प्र^० इति निता. । e) =योगवस्थाविशेष- । f) °हाबाहो इति अञ्जा. । g) =मन्थविशेष- ।

ऐ ५, ३; मै ३, २; वृष ४, १५;
 राउ ४, १७; महा १, १; योशि
 १, ४०; प्रा ४, १; सा २९१;
 १९; भव २, १५; गो १३, ५;
 -सै: त्रिवि ६, ३.

महाभूतो(त-उ)थ-सू-
 क्षमा(क्षम-अ)हो(ह-उ)पाधिक-
 -का: त्रिवि ४, १४.

महाभूमि- -मौ क१, १, २४.

महाभूमिका-
 महाभूमिका-वत् निरु
 २, ८.

महाभेयां(रि-आ)दिक-
 ध्वनि- -नौ नाद ३६.

महाभैरव-
 महाभैरवी- -० वि
 व ४६४: २२.

महाभैरव-रूप-
 महाभैरवरूप(त>)
 णी- -णीम् शि ६, ११९.

महाभोकृ- -क्ता अन्न १,
 १८.

महाभोग- -गम् रा
 ४२४: ५; -गाम् शि १, ३०; २,
 २२; ३१; ५, २६; ६, ८७; ९३;
 १२८; २१९; ७, ९८; -गै: शि
 ४, २७; ४१; शि ६, ५; ७; १३;
 १५; १८; २८; ३०; ३६; ५१;
 ५३; ६३; १७६; २३२; २३३;
 २३५; २३७-२३९; २४०.

महाभोग- -ग: शि ३,
 १४.

महाभय- -ख: १अव ६.

महाभङ्गल-प्र(द>)दा-
 -दा रा ४२५: २१.

महाभङ्गल-प्रिय(य>)या-
 -०ये हंपो १२.

महाभण्डप- -पे रार २, ३७.
 महाभण्डका(क-आ)थ-
 (दि-अ)नन्त-शक्ति- -क्तिभि:
 त्रिवि ६, ५.

महाभति- -तय: पितृ १,
 १; ५; -ति: अना २३; १योत
 १०४; योशि ५, ६०; -०ते नाद
 २१; महा ६, १५; ६०; अन्न ४,
 ८३; जाद १, १२०; वरा २, ४६;
 ५, १४; सु २, २, १०.

महाभक्त-माव(ह>)ह्री-
 -ह्रीम् व ४३४: २३.

महाभक्त्य- -स्त्य: वृ ४,
 ३, १८.

महाभनस- -ना: छां २, ११,
 २; ६, १, २; महा २, २; ६, ५२.

महाभनु-
 महाभनु-समुद्रव-
 -वम् त्रिता १, १३.

महाभन्त्र- -न्त्र: सूता २,
 १९; नापू ५, ५; -न्त्रम् सूता २,
 ७; २१; सार २७६: १२; -न्त्रस्य
 सृ १२; -न्त्राय व ४६३: २०.

महाभन्त्र-मय- -यम्
 त्रिवि ७, ४९.

महाभन्त्र-विद्या- -यद्या
 सार २३२: ५.

महाभा(या>)य- -यम्
 वृउ ५, ३.

महाभाया- -या त्रिवि ४,
 १२; योशि २, ११; सी ५; नापू
 २, ४; -या: गोच ६७८; -याम्
 त्रिवि ४, १३; ६, १०; त्रिता १,
 ८५; -०ये व ४३१: १५; ४३६:
 १७; २२; ४५७: २३.

महामाया(था-अ)सीत-
 -त: त्रिवि २, १५.

महामाया-देव्य(वी-अ)-
 ह-भूत- -तम् त्रिता २, ३४.

महामाया-संमीलन-
 -नाप् गोच ६७: १४.

महाभा(रि>)री- -० रि
 हंपो ९.

महाभार्ग- -गै: यो २, ४९.

महाभीन- -न: पितृ ६, ११.

महाभुण्ड-माला-धारि-
 (न>)णी- -०णि हंपो ४.

महाभुद्रा- -द्रा ध्या ९२;
 ९३५^१; १योत २६; योच ४५^१;
 ६५५^१; ७०; -द्राम् योच ६९.

महाभुनि- -नि: गौ १, २२;
 मं १, १, १; ३, १, १; अन्न ३, १; ३;
 वरा १, १; जाद १०, १३; शि १, २;
 -०ने श २७; महा ४, ५८; जाद
 १, २०; ४, ३३; ३९; ५३; ६१;
 ६, ३६; ७, १; ८, २; वि २; १४.

महाभृलु- -लुम् सू ३३३;
 दे २२.

महाभ्रोह- -ह: भव ३, १०;
 सांका ४८.

महाभ्रौनि- -नी ते ४,
 ३३; अन्न ५, ११४.

महाभ्रु- -रुम् वरा ५, ६२.

महाभ्रु-कया- -था पाशु
 १, ३१.

महाभ्रुति- -ति: नाप ६,
 ५; १संन्या २, १००; कर्ह २६.

महाभ्रुन्त्र- -न्त्रम् त्रिवि
 ७, २९; रार ३, १; -न्त्राय व
 ४६३: १८.

महाभ्रुन्त्र-मय-
 महाभ्रुन्त्रमय-परम-

वैकुण्ठ- -नारायण-यन्त्र- -न्त्रम्
 त्रिवि ७, २९.

a) कस. । b) यस. । c) सुने इति श्रद्धा. । d) कस. । उप. = १मनु- । e) = देवीविशेष- ।
 f) = योगावस्थाविशेष- । g) पा १० द्राम् (दि १) इति शोध: द्र. [तु. सस्थ. वभोमुद्रा ओ ० द्रावो (तु. संति. [० द्राम् ओ ०
 पृ ४३२] यदनु मुपा. च गपू निर्देश च शोध: द्र.)] ।

महा-यशस्- -शा: महा ३,
 १; वपू १, ४.
 महा-यष्टि-समाश्रित- -तम्
 शि ६, १४६.
 महा-यान- -नै: शि ६, ४.
 महा-योग- -ना: योशि १,
 १३०; १अव ६; -ग्याम् योशि
 १, १५६; -ने योचू ११.
 महायोग-प्र(द>)दा-
 -दा रा ४२६: २१.
 महा-योग-भाषा- -या
 त्रिवि ६, १६.
 महा-योगिन्- -गिने दत्ता
 २; व ४५६: ८; -गी १योट २;
 १३०; २योट १, २; योशि १,
 १५१; ५, ५३; ५४; अष ४, ४;
 जाद १, १; वरा २, १.
 महा-योगे(ग-रु)धर- -र:
 गी ११, ९.
 महा-रजन^{८०}-
 माहारजन- -नम् वृ २,
 ३, ६.
 महा-रजस्- -ज: ध्या ८७;
 योचू ६०.
 महा-रत्न- -सम् जाद ४,
 ५०; शि ६, १०४; -लानि शि
 ६, ९०.
 महारत्ना(त्र-अ)न्वित,
 ता- -तम् शि ६, ११; -ताम् शि
 ६, ८९.
 १महा-रथ^८-
 महारथ-विमान- -ने
 शि ६, १३९.
 महारथो(ध-उ)व(मा>)-
 म- -नै: शि ६, १८२.
 २महा-रथ^८- -ध: की १, ४;

१७; -या: गी १, ६; २, ३५.
 महा-रमण-स्थान- -नम्
 सार २८६: १६.
 महा-र(य>)या- -या: महा
 ५, १४२.
 महा-रस- -सै: त्रिता ३, २६०.
 महा-राज^८- -०ज मै २, १;
 मैत्रि २, १; मैत्रे १, ४, १; -ज: वृ
 २, १, १८^३; १९.
 महा-रास-स्थल- -लम्
 सार २४६: २१.
 महा-रिपु- -पु: ते ५, ९८.
 महा-रुद्र- -द्राय पं १.
 महारुद्र-राजन्^८- -ञ:
 सार २४३: २१.
 महारुद्र-शत-सहस्र-
 जाविन्- -वी दत्ता ३.
 महा-रुद्राक्ष-वृक्ष-
 महारुद्राक्षवृक्ष-क- -का:
 रुजा १, ३.
 महा-रूप- -पम् अष ४, ६५.
 महा-रोग- -गम् मैत्रे २, ५;
 -गा: लङ्गि २३.
 महारोग-विनाशन-
 -नम् त्रिमा २, ११२.
 महा-रौरव-संज्ञक- -काञ्
 पदं ३^३.
 महा-रौरव-संज्ञा-
 महारौरवसंज्ञित- -ताञ्
 नाप ५, २.
 महा(हा-अ)र्थ^८- -धम् इ
 १७: १.
 महा(हा-अ)र्थ्ये- -ध्वम् वउ
 ६, ७.
 महार्थ्यो(ध्व-उ)दक-
 -कैत वउ ६, १३.

महा(हा-अ)र्थ- -ध्वानाम्
 मै १, ७; मैत्रि १, ४; मैत्रे १, २.
 महा(हा-अ)र्थ- -धम् शि
 १, ८.
 १महा-लक्ष्मी^८-
 महालक्ष्मी-प्र(द>)दा-
 -दा रा ४२४: १.
 २महा-लक्ष्मी^८- -०क्षि
 सार २४८: १८; व ४५२: २१;
 ४५८: १२; इंधो १५; -क्ष्मी:
 वृपू १, ६; ४, ११^३; सी १०; योशि
 २, ११; अष १, ५^३; दे ७; नाप
 २, ८; १२; १६; पी ४२२: ११;
 सुसु १४; -क्ष्मीम् वृपू ४, १२;
 त्रिता १, ८३; २, २५; -क्ष्म्यै व
 ४३१: ६; सूता ४, ३.
 माहालक्ष्म्य-
 -क्ष्म्यम् वृप ८४: १५.
 महालक्ष्मी-मत-दिन-
 -नेपु रा ४२४: ३.
 महालक्ष्मी-शक्ति- -क्ति:
 आष ३९४: ९.
 महालक्ष्म्या(धर्मा-आ)-
 लिङ्गिता(त-अ)र्ध-शरीर-
 महालक्ष्म्यालिङ्गि-
 तार्धशरीरिन्- -रिणम् नापू ४,
 २४.
 महा(हा-अ)लय^८- -यम् इ
 १९: ६; -ये शि ६, १८१^३.
 महा-लिङ्ग- -ङ्गम् योचू ८;
 शि ३, १३.
 महा-लीला- -ला सार २४०:
 ६; २४१: ८; -लाम् सार २४१:
 ११; २४३: ९; २८०: ६; २८५:
 २३; २९०: २१; -लाया: सार
 २२६: २३; २३२: ३; २२;

अ) ०याग: इति श्रव्या । b) =हरिद्रा- । c) कम. । d) बस. । e) ०स्ता: इति निप्ता. संदि. । f) पा ५, ४, ९१ । g) ममासागतस्य ट्योऽभावः उक्तं. (पा ५, ४, ९१) । h) ०रवम्, एव च इति श्रव्या । i) विप. । j) कम. विप । k) कस, नाप =देवो- । l) =श्री-बीजाक्षर- । m) बस. । उप. भाप. =सन्तान-१ । n) =तीर्थनिर्देश- ।

२३६:५; २०; २२; २३७: १;
२४०:१८; २४१:५; ७; २४३:
७; २९०: १२; -लायाम् सार
२३४:१७; २३६:९; २३९:१;
२४३: ३; २४८:१४; २७९:
२०; २८६:१२; १७; २८८:१८;
२८९:१२; १३; २९०:७; १७;
२९१: ३; ९.

महालीला-दर्शना-
(न-आ)काङ्क्षा- -ह्वा सार
२४१: १६.

महालीला-योग्यता-
-ताम् सार २४०: १६.
महालीला-विहारिन्-
-रिणे सार २६१: १०.

महालीला-संकेत- -तस्य
सार २६०: ५.

महालीला-स्थान- -नम्
सार २२१: २; २४०:
१९.

महालीलो(ला-उ)पसेव्य-
मान- -नाः सार २९०: ६.

महा-वज्र-कपाट- -भिद्-
-भित् यो २, ३७^०.

महा-वज्र-कवच- -चैः व
४३८:१४; ४३९:१; ११; २१;
४४०:८; १८; ४४१: ६; १६;
४४२: ४; १५; ४४३: २; १३;
४४४:६; १६; ४४५: ३; १४;
४४६:१; १३; २३; ४४७:११;
२२; ४४८: १०; २१.

महा-वन- -नम् सार २२१:
१३; -ने सार २६०: ३.

महावन-लीला-
-लायाम् सार २९०: १३.

महावन-विहार-लीला-
दर्शन-काङ्क्षिन्- -क्षिणः सार
२४३: १७.

महावन-विहार-स्पर्शन-
-नम् सार २३२:८.

महा-पश्य-क(र>)री-
-रीम् त्रिता १, ८१.

महा-वाक्य- -क्यम् ते ६,
२९; ५५ ४१८: ३३; ४६ १;
-क्यानि शु १, १४; २, १; ३,
१५^०; -क्यैः ६ १३.

महावाक्य-जप- -पे शु
१, १८.

महावाक्य-प्रय- -यम् शु
८०.

महावाक्य-पद- -द्वैः शु
३, ९.

महावाक्य-विचार- -रेण
वरा ४, ३७.

महावाक्य-विवरण-
-णम् पै ३, १.

महावाक्य-पद्-अङ्ग-
-ज्ञानि शु २, ५.

महावाक्या(क्य-अ)र्थ-
-थम् त्रिवि ८, ५.

महावाक्यार्थ-तस्य
(>) ते ५, ५.

महावाक्यार्थ-स्व-
रूपा(व-अ)नन्त-शाखा- -सम-
न्वित- -तम् सि ६, १८.

महावाक्यो(क्य-उ)पदे-
-षा- -ते नाप ३, १; १संन्या २, ३.

महावाक्योपदेशा-
(श-अ)धिकार- -रः नाप ७,
महा-वादित्र-निर्घोष- -धैः
शि ६, १४२.

महा-वादित्र-निस्वन- -नैः
शि ६, १७२.

महा-वायु^१- -योः त्रिवि २,
१२; सं १०.

महावल्यु-देव- -वस्य

त्रिवि २, १२.

महा-विज्ञ- -ज्ञाव ग १८.
महा-विज्ञान- -नम् आपें
९:१०.

महा-विदेह- -हाः योसू ३,
४४.

महा-वि(या>)घ- -घाय
व ४^१६: १४.

महा-विद्या- -द्या योचू ३५;
मं १, ३, ५; नायू २, १४; य

४५८:२२; -द्याः वपं ३१३:१;
-द्याम् प्रवि २६; अथ १, ३; यो

२, २४; षी ४२१:२; व ४३२:
१९; ४६२: ११; ४६५: १०;

१४; १८; -द्यायै व ४३३:१७;
-द्वेषे व ४३२: ४; ४३७: ३;

४६६: ६.
महाविद्या-वत्- -वताम्
व ४५९: ४.

महाविद्या-संचय-प्रभा-
भासित-सकल-दिग्-अन्त-

(र>)रा- -० रे व ४३१: १२.

महाविद्या-सर्वा(वै-अ)-
र्थ-साधि(व>)नी- -०नि व

४३६: १५.
महाविद्यो(द्या-ई)भरी-

विद्या- -द्याम् त्रिता २, ८.

महा-विन्ध्य-स्थि(त>)-
ता- -०ते व ४३१: २०.

१महा-विभूति^१-
महाविभूति-द- -दम्
वृजा ६, ७.

२महा-विभूति^०- -ति वृज
५, ३^१.

महाविभूत्य(ति-अ)र्थ-
-थैः वृज ५, ३.

महा-विमान- -ने शि ६,
१४४^१; -नैः शि ६, १७९.

a) °क्या° इति निता. सदि., अख्या. । b) रहोवा° इति अख्या. । c) कस. । d) वस. । e) °नया° इति वा.१ नि. शोधः द्र. ।

महा-विराट्-पद- -दम्
त्रिवि ६, १०.
महा-विराट्-पुरुष- -पम्
त्रिवि ३, ५.
महा-विराट्-स्वरूप- -पम्
त्रिवि ६, ११.
महा-विष्णु- -ष्णवे त्रिवि ७,
३४; चा २३; नाठ २, ६; -ष्णुः
वृष्ट १, १६^१; त्रिवि १, २; ७,
१४; ८, २; ४; १४; १८; २४; राठ
४, ४५; जाद १, १; राधा ३,
१३; सार २९१: २०; -ष्णुम्
वृष्ट २, ६; १०^१; ध्या २९; ३०^१;
त्रिवि १, १; ५, १२; ७, ४०; ८,
१; १७; अव्यय; वषं ३१२: १०;
व ४५७: १२; -ष्णो नाष्ट ३,
१६; नाठ ३, २०; -ष्णो: त्रिवि
१, ११; ३, ५; ४, १३; ५, १२^१;
६, ८; ९; २३; ७, ६; १५; ८, १६;
योशि ५, ३४; वरा २, ५; राधा
१, ५; -ष्णो राष्ट १, १.
महाविष्णु-राम-कृष्ण-
द्वादशा(श-श)क्षर-मन्त्र-
-न्त्रा: त्रिवि ७, ३४.
महाविष्णु-स्वरूपक-
-कम् रुजा २, १४.
महा-वीचि-वागुरा- -रा
नाष्ट ३, ४९.
१महा-वीर- -र: श ६; वि
१२९; -राष्ट लां २१४: २१५^१.
२महा-वीर^{१०}-
महावीर-संभरण-
-णानि छाग २३: ११; २४: १४.
महा-वी(र्वे)र्वा- -र्वा:
योशि १, १५५.
महा-वृक्ष-निषासि(वृ)-
नी- -नीम् व ४३४: २३.
महा-वृष^१- -वेषु छां ४, २, ५.
महा-वेष^{११}- -ष: १योत

२६; ११७.
महा-व्यतीपात- -ते भ २,
२४.
महा-व्याधि- -धि: कृ १५.
महाव्याधि-भय- -यात्
सू २७.
महा-व्याहृति- -तय: वृष्ट
४, १५, १५; राठ ४, २०.
महा-व्रत- -तम् १अव ६;
योत् २, ३१.
महा-व्राक्ति- -क्तय: वषं ३२:
२; -क्तिम् व ४३३: ५; -क्त्यै
योशि ६, ३.
महा-वाह्व^१- -ह्वम् गौ १, १५.
महा(हा-श्र)सान- -न: गौ
३, ३७.
महा-वाचद्- -वद्: भवं २,
५१; -वद्म् शि ६, १५५.
महा-वा(ला)ल- -ल: सुं
१, १, ३; म १; -ला: छां ५, ११,
१; ३; ६, ४, ५; छाग २४: ६; ७;
पित्र १, १.
महा-वाम्न- -वाम् ते ६,
१०८; रा ३२; ३६; -व्ने शि ७,
१३३.
महा-वित्पि-विनिर्मि-
(त<)>वा- -ताम् शि ६, १३३.
महा-शुद्ध, द्वा- -द्वम् शि ६,
१०१; -द्वाम् शि ६, ३१.
महा-शुद्ध- -न्यम् सौ २, ९.
महा-शुद्धार-रस- -स: सार
२८७: ५.
महा-शैव- -वा: भ २, २८.
महा-श्मनान- -नै निर्वा
२९८: ३.
महा-श्री- -श्री: रुना २, ६; ८.
महा-श्रेयस- -योसि त्रिवि
८, १८.
महा-श्रोत्रिय- -या: छां ५,

११, १; ३; ६, ४, ५; छाग २४:
६; ७; पित्र १, १.
महा(हा-श्र)श-शिरस-
-रसे त्रिवि ७, ४०; ह ४.
महा-सर्वतर्क- -कै सुवा १२.
महा-सेसार-
महासंसार-ता- -ताम्
अक्ष ४, ५६.
महा-संहिता- -ता: तै १,
३, १; ४^१.
महा-सत्ता- -ता अक्ष ५, ५५.
महा-सत्त्व- -त्वात् वृष्ट ७, २.
महा-सत्र^{१२}- -त्राय द १.
महा-समता- -तया अक्ष ५,
१०.
महा-संपत्-प्रद- -दाय व
४५६: ७.
महा-सरस- -रांसि शि ६,
२७.
महा-सरस्वती- -ती सर
१, ३; ४; ३, ४.
महा-साम्राज्य- -ज्यम् दत्ता
१, १.
महा-सार- -रम् शि १, ८.
महा-सिद्ध-लक्ष्मी- -क्ष्म्यै
व ४३६: १.
महा-सिद्धान्त- -न्त: निर्वा
२९८: ५.
महा-सिद्धि- -द्वय: सार
२५३: २०; २७४: १०; -द्वै:
१योत ७६.
महासिद्धि(र<)>री-
-री योच ७०.
महा-सुबुधन- -नम् त्रिवि
७, १; -नाय त्रिवि ७, २६.
महा-सुरे(र-इ)न्द्र- -न्द्र:
अला २^१.
महा-सु-हय- -य: वृ ६,
१, १३.

a) वीरम् इति धान. । b) वृष्ट. ? = पात्रविशेष- । c) = योगावस्थाविशेष- ।

महा-सुहम् - सुहम्, -सुह
 वृत् ३, १०.

महा-से(ना)न- ननाप
 मना १, ६९^०; अक्षि १; व ४६३:
 १९^०.

महा-सौभाग्य- नयम् त्रिता
 २, ५.

महासौभाग्य-दायि-
 (न)नी- नी नापु २, ११.

महा-स्तम्भे(म्भ-ई)श्वर-
 -रः पी ४२२: ३.

महा(हा-अ)स्य- स्यम् मुं
 २, २, ३.

महा-स्थान- नम् सार
 २३३: १८; २३८: १५; २५५:
 १; २८३: १४; २८४: १८; २८५:
 ११; ने योशि ६, ४७.

महा-स्थूल- लम् वृत् ३,
 १०.

महा-त्रान- नम् शि ५, १.
 महा-स्नापन-पूजा- जाम्

शि २, २६.
 महा-हरि- -रिः स्क ४.

महा-हस्तिन्- स्ती वपु १,
 ४९^०.

महे(हा-इ)न्द्र- न्द्रम् महा
 ३, ३८९^०; न्द्रस्य शि ७, १३०९^०.

महेन्द्र-जाल-दर्शक-
 -कः पी २१.

महेन्द्र-मलय-सख-
 मन्दर-मेरु- -रवः महा ५, १४१.

महे(हा-ई)श- -शः श १९;
 २०; पं १; सिशि ३८३: ५;

-शाम् श २; -शस्य महा ४, ८७;
 -शाम् हे १४.

महेकी- -शि हे ३.
 महे(हा-ई)शान- नम् श

१६; जाद ८, ९.
 महे(हा-ई)शर- -र शु १,

६; -रः मगा २, १२, ३९^०; अक्षि
 ३, १३; ४, २२; २४९^०; वृपु ४,

१५, ३; मन्त्रि १२; शु ३, १८;
 प्या ११; ४२; मयि ४१; ६२;

१०२; १योत १११; श ४; राउ
 ४, ५; ४२; शां ३, १^०; ९^०; योशि

१, ३; अक्ष ४, ३२; ३३^०; रङ्ग
 १३; १५; ४१; ४२; क २०; ह

९; बाला १३; सु १, १, २०; नाउ
 १, ६९^०; व २५; वटु ३१५: १४^०;

३१६: १५९^०; १७; शि ७, ७९;
 गी १३, २२; -रम् श्रे ४, १०; द;

७; गर्भ ४; पाशु १, ११^०; श १४;
 रङ्ग १०; जाद ९, २; -नाय श

२३; ३१; ह ९; -रेशि ६, १३.
 महेशरी- -री

२शिसं १९; -रीम् शु ५५; ६६.
 माहेश्वर- -रम् ध्या

१०५.
 माहेश्वरी- -रि

त्रिवि ७, ३५^०; व ४२८: ८;
 ४३१: १०; १८; ४३६: २२;

४५८: ११; ४६२: ६; -रीकालि
 ४०१: ११; गार ४०६: १५;

पी ४२२: १०; द्या १३; सुमु १३;
 तारा ८४: ४; -र्यं व ४३१: ४.

माहेश्वरी-
 शक्ति- -क्तिः आय ३९४: ३.

महेश्वर-स्व- -स्वात् वृत्
 ७, २; क २४.

महेश्वर-पादो(द-उ)-
 दक- -कम् क २७.

महेश्वर-पूजन- -नात् क
 २६.

महे(हा-इ)श्या(पु-आ)स-

-०स त्रिवि ७, ४०; राउ २, ८१;
 रापु ४, १५; -साः गी १, ४.

महो(हा-उ)क्ष- -क्षाः सार
 २७४: २०.

महो(हा-उ)प्र-विपो(प-उ)-
 प्र-भक्षित- -दंष्ट्रा-

महोमविपोमभक्षित-
 दंष्ट्रि(न)णी- -०गि व ४३१:

१८.
 महो(हा-उ)ज्यव(ल)ला-

-ला त्रिमा २, ६५; शां १, ४.
 महो(हा-उ)सव- -वः अक्ष

४, १३.
 महोसव-काल- -ले

सार २३२: २२.
 महो(हा-उ)दधि- -धिः पित्र

१, १२; ९^०.
 महोदधि-तीर्थ- -थम्

म ४८: १३.
 महो(हा-उ)द्वय- -यः महा

५, १७; सु २, २, ३८.
 महो(हा-उ)न्मादिनी-

मुद्रा- -द्रया त्रिता २, ५८.
 महो(हा-उ)पनिपद- -पव

वृपु १, १६; २, १८; ३, ६; ४,
 १६; ५, २१; राउ ५, १; महा १,

१; अव्य ३; त्रिता १, ८७; २,
 ७४; ३, ३७; ५, २१; त्रि १६;

-पदम् मना २, ७९९^०; वृपु १,
 १६; राउ १, १^०; महा १, १९^०; ६,

८३९^०; च २०: १; २१: ७.
 महो(हा-उ)पसर्ग- -नीम् वव

५, ४८.
 महो(हा-उ)पहार- -रैः अक्ष

१४.
 महो(हा-उ)रग- -गः वरा

२, ४०.

a) तैश्वा १०, १, ६। b) श्रु ८, ८१, १। c) तैश्वा १०, १०, ३। d) 'वर्तते' इति निसा. संदि.। e) माहो इति निसा.। f) श्री इति अश्या. संदि.। g) तैश्वा १०, ६३, १। h) मम उप० इति अश्या.। i) =तदाख्योप-निषद्विरोध-।

महोरग-वृष्ट- -ष्टः मै ४,
 २; मैत्रि ४, १.
 महो(हा-उल्का>)लक-
 -क्याय त्रिवि ७, ४२; नापु ४, १९.
 १महिमन्^१- -मा के ३, १; सुं
 २, २, ७; छां ३, १२, ६९^१; ७,
 २४, २; वृ ४, ४, २३; श्वे ६, १;
 मै २, ३; मैत्रि २, ३; ४, ४; ६,
 २१; व १^१; त्रि १; पाशु १, २;
 इ १२; १२; छाग २३: ४; शौ
 ५१: ९; -मान: वृ ३, ९, २; मवा
 १०९^०; -मानम् क १, २, २०९^०;
 प्र ४, ५; ५, ३; सुं ३, १, २; छां
 ४, ३, ७; श्वे ३, २०९^०; ४, ५; मै
 ३, १; मैत्रि ३, १; ६, २, १; मना
 २, १२, १९^०; २, ७९^१; ८०^१;
 नाप ९, १३^०; श १८^०; गोशि
 ५, ५२; आर्षे ७: ११; ८: १;
 १२; १६; बा १२; नाड १, ८^०;
 पा ९, ३^०; सार २५१: ६; त्रिशि
 ३८१: ६; गी ११, ४१; -मानो
 मना २, ८०^०; -म्र: सुदर: आर्षे
 ९: ५; ६^१; वसू १, ३, १६; -म्रा
 छां १, १, ९; -त्रि छां ७, २४,
 १^१; मै २, ४; मैत्रि २, ४; ६, २८^१;
 ३८; वृ ७, १३; त्रिवि १०५.
 महिमा-
 महिमा-सिद्धि^१- -द्वि:
 आथ ३९३: ४.
 महयत्- -यत् छां ८, ८, ४.
 महय्य- -य्य: छा ८, ८, ४.
 महत्^१- -ह: ते १, ५, १; २^१; ३^१;
 ६, २; २, ४, १; ३, १०, ३; छां ३,
 १३, ५; मना २, ५^१; २४^१;

३५^१; अशि २, १४; शु २, ५;
 ते २, ६; ३, २, ३; त्रिवि ७, ४४^१;
 महा १, १; सर २, ५^१; सूता
 ३, ७; नाड १, ११; राधा १, ३;
 लां २१३: ८; गर ४०५: १२;
 १५; -हसा त्रिता १, ४; -हसे
 मना २, ७९^१; सूता ४, ५.
 महत्-जगत्- -गत् नाड ३.
 महत्-लोक^१- -क: गार ४०५:
 १५; -कम् वृजा ८, ४; वृषू ५,
 १६; नाड १६; वड ५, १२;
 -का: -केषु युवा १०.
 महलोक-ज्ञान- -नम्शां १,
 ७, ५२.
 मह^१-स्तोम-फल-प्रद>दा-
 -दा सी १३.
 महस्-त्व- -त्वात् वृ ७, २.
 महस्-वत्- -वत् त्रिवि ७, ५;
 सु २९३: १६९^०; -वान् छां ३,
 १३, ५; मना २, ७९^१.
 १महि^१- -हि वृ ६, ३, ५.
 महि-त्व^१- -त्वा नापु ४, ७९^१;
 २शिसं ३, ३९^०.
 महि-दास^१- -स: छां ३, १६, ७.
 √महीय्, महीयते क १, २,
 १७: ३, १६; छां ८, २, १-१०;
 अशि ४, २४; नाड १४; १योत
 १०९; इ ११: २१; सूता १,
 १५; गोच ६७: ४; ५; ६८: ८;
 वड ३१६: १७; शि ४, ३६; ४१;
 ५, २४; ६, ५; ७; ११; १५;
 १७; २०; २३; २५; २८; ३२;
 ३८; ४५; ४८; ५०; ५३; ५४;
 ५७; ६२; ८२; ८६; ९२; २०१;

२१३; २१५; २२७; २३२;
 २३३; २३५; २३६; २३८;
 २४२; २४४; २६०; २६२;
 २७५; २७८; ७, ९४; गु ४०;
 विद्या १; महीयन्ते तै १, ५, २^१;
 ३^१; महीयन्त्वम् के ४, १; अ-
 महीयन्त के ३, १.
 महीयमान- -न: छां ८,
 १०, १.
 महीयस्- -यांस: शौ ५१:
 ९; -वान् क १, २, २०९^०; श्वे ३,
 २०९^०; मना १, १९^१; २, १२,
 १९^०; नाप ९, १३^१; श १८^०;
 त्रिवि १, १; नाड १, ७९^०; पा
 ९, ३९^०.
 महीयसी- -सी शि ६,
 १७१; -सीम् गु ५१.
 १महिप^१- -प: सु २९४: ६९^०.
 मह(ह>)ही^१- -ही श्वे २, ४९^१; पं
 १; कृपु १५; -हीम् मना १, १९^१;
 नाप ४, १८; २२; ३६; ५, २०;
 २५; क ६३: ५; शि ६, ८९;
 वड ३, १३; २३; गी २, ३७;
 -हीनाम् त्रि २.
 मही-कटि-देश- -दाम् वड ४,
 ३७.
 मही-कृत- -ते गी १, १५.
 मही-शिव- -क्षिताम् गी १,
 २५.
 मही-तल- -ले त्रिवि ५२; क ७.
 मही-प^१- -पानाम् वरा ३, २२.
 मही-पति- -पि: शि ६, ६५;
 ६९; २०५; २१४; -ते भव २,
 २८; गी १, २१

a) =महात्म्य-। b) श्र १०, ९०, ३। c) श्र १, १६४, ५०। d) तेषा १०, १०, १। e) तेषा १०, १३, १। f) तेषा १०, ६४, १। g) तेषा १०, ६४, १। h) वैपश् यद। इह =तेजम्-महत्-लोक-भ्याहतिविशय-। i) तेषा १०, ४, १। j) तेषा १०, १६, १। k) तेषा १०, २८, १। l) तेषा १०, २७, १। m) श्र १, २, १२। n) तेषा १०, ६३, १। o) विसर्गलोपः (पावा ८, ३, ३६)। p) तेषा ३, १२, ३, ४। q) वैपश् यद। r) श्र ७, १००, ३। s) तेषा १०, १२१, ३। t) वग.। उप. भाष. =दान- (वैदु. MW. =मही^१ इति यण. इतीव ?)। u) तेषा १०, १, १। v) =महत्-। वैपश् यद। w) श्र ९, ९६, १९। x) वरा. वैपश् यद। y) मा ११, ४। z) उव. उप. <√वा(रपणे)।

मही-पाल-लः मदा ५, ७४.
 मही-भाग- नो शि ५, १८.
 मही-श्रुत्- श्रुताम् राष्ट्र १, ४.
 मही-स्थित- तः राष्ट्र १, १.
 महयत्-, महय-, महस-, महा,
 १महि- √मह् द.
 २महि^१ त्रिता १, २७; २८; ३०; ४७; ५४
 महिदास- √मह् द.
 १महिमन्- √मह् द.
 २महिमन्^{१b} -मा वृ १, १, २^१;
 -मानौ वृ १, १, २.
 १महिय- √मह् द.
 २महिय^{१०} -ङ्यः मना २, १२, १;
 २, ४०; व ४४२: १९; ४४८:
 ३; ४५२: ९; वृ १, १.
 १महिपी- पीम् शि ६, १९९.
 ३महिय^{१०}-
 महिय-प्राणा(ण-श्र)पहारो-
 (र-उ)व(म>)मा- ०मे व
 ४६५: २२.
 महिय-मर्दि(व>)नी- ०नि व
 ४५६: ३.
 महिपा(प-श्र)रूढ- ङः व ४२९:
 १८.
 महिपो(प-उ)त्तमा(म-श्र)ङ्ग-
 सं(स्थ>)स्था- स्थाम् व
 ४२६: ११.
 ४महिय-
 २महिपी- पी इ १६: २२.
 माहियिङ्- ङः इ १६: २३;
 -कम् इ १७: ३.
 मही-, √महीय्, महीयमान-, मही-
 यस्- √मह् द.
 मह्य-, १-२मा- अस्मद्- द.
 ३मा^१ ई १; के शां^१; क शां^१ङ्^१; १,

१, २१; प्र २, ३; १२; तै १,
 ११, १^१; २, १, १^१; एशां^१; छां^१
 शां^१; ३, ११, २; वृ ३, ६, १^१; ९,
 २८, ५; ५, १२, १; श्वे शां^१ङ्^१;
 ३, ६९^१; ४, २२^१ङ्^१.
 मो^१ सूता २, ११.
 ४मा^१- मा गार ४०७: १८.
 ५मा^१-
 मा-रूप-
 मारूप-स्व- स्वात् रार ५, १२.
 ६मा^१-
 २मा-धव^१- ०घ गोप् ४५; गी १,
 ३७; -चः गी १, १४; -वाय त्रिवि
 ७, ४१.
 २माघवी^{१०}- षी सार
 २४२: २१.
 माघव-रुद्र-विनायक-सौर^१-
 -राः स्वा १४.
 √मा(शब्दे), मिमाय ह १६९^१; १८;
 चक २१९^१.
 √मा(माने), >मापि, मीयते इ ११: १.
 १मात्-
 मात्-मान-विहीन- नः मैत्रे
 ३, १३.
 मात्-माना(न-आ)दि- दि ते
 ५, ३४.
 मात्र- त्राणि पाशु १, १७; -त्रैः
 जाद ६, ३; ७.
 मात्रा^१- त्रया १योत ४१; त्रिवा२,
 ९७; जाद ६, ४; ८; त्रा मां९-११;
 तै १, २, १; मैत्रि ६, ६; अशि ५,
 ९-११; १३; अ ३; ३^१; वृप२, २;
 ३, १; २; नाद ६; ७; ९; १योत
 ४०; १००; योशि १, ७४^१; २प्र
 ३४; १९; २१-२३; कालि ४०२;

१०९^१; श्या १२९^१; -त्राः प्र
 ५, ६; मां ८^१; गौ १, २४; मै
 ५, ३; ६^१; मैत्रि ६, ३; ६;
 अशि ३, ९; अ ३^१; नाद ८; त्रिवि
 ३^१; ८; योच् १०४; शा ८९^१;
 १प्र ३१: ४^१; १४; २प्र ३४:
 १९; ३५: १४; वृ ३१५: ९;
 स ३७९: ५; -त्रामिः वृ २, ४;
 ३, १०; -त्राम् छां २, २४, १६;
 ३, १९, १; वृ ४, १, ९; ३२; ४,
 ४; -त्रायाम् नाद १२; १४;
 -त्रासु योच् ८५; योशि ६, ५६-
 मात्रा-द्वादश-योग-नेन ह्रु३.
 मात्रा-द्वादश-संयुक्त- क्तौ
 योच् १०२.
 मात्रा-द्वादश-संयुत- तः योच्
 १०१.
 मात्रा-घा(रा>)२- रेण ह्रु२४.
 मात्रा(त्रा-श्र)मात्रा- त्राः वृ २
 २, ८; ३, ६.
 मात्रा-लिङ्ग-पद- -दम् अना४.
 मात्रा-सङ्ग- ज्ञात् नाप ५, ६-
 मात्रा-संप्रतिपत्ति- -क्तौ गौ १,
 १९-२१.
 मात्रा-स्थिति- -तिः योच् ८६-
 मात्रा-स्पर्श- -शांः गी २, १४.
 मात्रा-हीन- -नम् सार २९२:
 २०.
 मात्रो(त्रा-उ)पकरण(ण-श्र)-
 सन- -नम् शि ६, २१७.
 २मान-
 मान-स्व- स्वात् वृ ७, २.
 मान-यधि- -धिम् त्रिता २, ३९.
 मानयधि-द्वय- -येन त्रिता
 २, ४३.

a) √च्ये>पीमहि इलस्योत्तरांशः । b) व्यु. ई = पात्रविशेष- । c) वैप२ यद्र । d) अष्ट ९, ९६, ६ ।
 e) = राजसविशेष- । f) = अन्व. । वैप२ यद्र । g) तैआ ८, १, १ । h) मा १६, ३ । i) अष्ट १, ११४, ८ । j) छ-
 वैप२, ९७८ । k) व्यु. ? = शक्तिविशेष- । l) 'रामाय' इत्यत्र मन्व्यवर्तिनः 'मा' इत्यस्थानुकरणम् । m) व्यु. ?
 = लघमी- । n) = सतीविशेष- । o) अष्ट १, १६४, ४१ । p) 'या' इति पा. ? यनि. शोधः द्र. (तु. अष्ट १, १६४, ४१) ।
 q) यत्र. वैप२ यद्र । r) = देवीविशेष- । s) उत्तरेण संघिरार्षः । t) = यतिपात्रविशेष- ।

मानयति-रेखा- खास्
 त्रिता २,४५.
 मान-सामान्य- न्यम् गौ१,२१.
 *मापया-
 *मापयां/कृ, मापयांचके छां
 ४,१,१.
 मित- -तम् नाप ३,६३; वरा ५,
 ९; भव ४,१८.
 मित-द्रु- -द्वी व ४६६: १५९^b.
 मित-भोजन- नम् जाद १,१.
 मित-हिता(त-अ)वन- -नः
 शां १,७,१.
 मित(त-अ)वन- -नः त्रिधा २,
 १०७.
 १मिता(त-आ)हार- -रः त्रिधा
 २,३३; शां १,१९^g; यो १,२;
 ४९^h; जाद १,६; वरा ५,१३.
 मिताहारिन्- -री ५्या७२;
 योचु ४२; ४३९ⁱ.
 २मिता(त-आ)हार- -रः गोच
 ६८:९.
 मिमान- -नः व ४६०: १६९^j.
 मेय-
 मेय-वर्जित- -तः से ४,४३.
 मेय-हीन- -नः मैत्रे ३,१३.
 मेया(य-आ)मन्- -न्मा से ४,४३
 मां-मां^k व ४३६: २३; ४३७: ३.
 मांस^l - -सम् ते १,७,१; छा २,१४,
 १; ६,५,१; गर्भे २, २; १२७;
 ६, ७; महा ४, २३; १२७;
 दन्वा २,१७; इ १३:७; निर १,
 ४; शि ६,३३; गार ४०८:११;
 भव ४,१५:१७; सस्य नि २३;
 भय ४,१६; स्यात् गर्वा २; निर
 १,४; स्यानि वृ १,१,३; ३, ९.

२८,३; सेन मै ३, ४; मैत्रि ३, ४;
 मैत्रे १, ३.
 मांस-क्षुब्ध- -क्षुया भव ३, ७.
 मांस-स्वक-छोगितो(त-उ)क्ष-
 -वः पि ८.
 मांस-वाञ्छालिका- -कायाः महा ३,
 ३९; वा २, ५
 मांस-पिण्ड- -ण्डम् सुया ४; ११;
 -ण्डाः योशि १, ४८.
 मांस-मय- -यः महा ४, १३१.
 मांस-नेद्रो-मज्जा(जा-अ)स्थि-
 -स्थीनि वरा १, १०.
 मांस-शोगित-लेपित- -तम् नाप
 ३, ४६.
 मांसा(त-आ)दि- -दि जसू २, ४, २१.
 मांसा(त-आ)द्य- -द्यः काम १९.
 मांसा(त-आ)सूक्-पूय-विण्-मुत्र-
 स्त्रायु-मज्जा(जा-अ)स्थि-संहति-
 -त्तौ नाप ३, ४८; ४, २८.
 मांसी(त-ओ)दन- -नम् वृ ६, ४, १८
 माक्षीक- गक्षि- -द.
 माख(?)पु^m वृता ६, ४.
 माघी- मघा- -द.
 माणव- , माणवक- *मणु- -द.
 माणिक्य- मणि- -द.
 मासिटⁿ - -ण्डाः, -ण्डे: वृ २, ६, १; ४,
 ६, ३.
 माण्डल्य- , माण्डक- , माण्डकायनि- ,
 माण्डकायनी- , माण्डकी- ,
 माण्डक्य- /मण्ड. द.
 १-२मातङ्ग- १, ३मातङ्ग- -द.
 मातरिथ्यन्- -थनः प्र २, ११;
 -थनः त्रिधा २, ९८^o; ९९; -था
 ई ४; के ३, ८; दे ९; मि ८; पा
 ३, ३; मप २, ३, ८.

मातुल- २मातृ- -द.
 १मातृ- /मा(माने) द.
 २मातृ^p - -वः दे १०; व ४६५: २२;
 ह्यो १२; -तरः छां ८, २, २; मना
 १, १२९^q; त्रि ३; निर १, १८;
 -रम् छां ४, ४, १; ४, ५, २४, ५, ७,
 १५, २; वृ ६, २, ३९^r; ४, २८; मना
 २, ५२९^s; राउ ५, १६; १संया
 १, १; पप ४१८: ७; २प्र ३३:
 १३; लि ३११: १०; २शिभं
 २८९^t; कथु १, १; -तरि क्रौ
 १, २; महा ४, २०; -था प्र २,
 १३; तौ १, ३, ३; छां ७, १५, १;
 वृ १, ५, ७^u; ४, ३, २२; मना २,
 २८९^v; ३४९^w; प्र २; मैत्रे २,
 १३; सुवा ४, ६; ते २, १३; ६,
 १६; १योत १३२^x; २योत
 १, ४; १संया २, १२१^y; या ३;
 कृ १५; २१; अद्वै २३; इ ११:
 १६; स्व ६२:१; शि ६, १६६;
 ७, ३८; १०९^z; व ४२७: १०;
 अद्वै मा ८; गी ९, १७; -तुः गर्भ
 ३; शि ६, १२७; -मृणाम् व
 ४३२: २०; -प्रा गर्भे ३^{aa}; -प्रे
 वृ ६, ४, २७.
 माता-पितृ- -प्रोः अथवा ६.
 मातापितृ-अ- -जम् मां वृ ३, ७;
 -जाः सांका ३९^{ab}.
 मातापितृ-मला(त-आ)रमक-
 -कम् मैत्रे २, ४.
 मातापितृ-विनिर्मित- -नः महा
 ६, ५५.
 मातापितृ-गुरु-
 मातापितृगुरु-प्यापितृ- -गी
 इ १७: १०.

a) पा ७, ४, ४ =। b) पा २, ९, ४। c) वग.। d) वरा.। e) पा १०, ८४, २। f) तु. डि. कुं-कुं।
 g) वैपश् वद.। h) पा १। i) य्यु। =मोत्रवर्षवर्ष-श्रुतिविशेष-। j) वैपश् वद.। इद =वननी- वा दण्डिकविशेष- वा।
 k) पा १०, ९, २। l) पा १०, ८८, १५। m) पा १, ११४, ७। n) तैमा १०, २१, १। o) तैमासा १०, १४।
 p) गच्छत् एव इति निता.। यनि. सोपः द.। q) 'माते' इति निता.। मानेव (=माता+एव) इति सोपः द.
 (द्र. अज्या.)। r) तु. गप. वृ १११२३। s) एव. भावद (पा ६, ३, ३)

माता-म(ह>)ही^०- ही मना २,
२८५^०.

१मातृ-(क>)का- काभिः सिरिहा
३८२: २२.

मातृ-गण- गणानाम् शि २, २९.

मातृ-गमन- गान्मु सुद्र ४.

मातृ-ज्ञ- ज्ञः रार १, ९.

मातृ-तस(>) महा ३, ३३.

मातृ-देव- वः तै १, ११, २.

मातृ-पितामही-प्रपितामही- हीः
नाप ४, ३८.

मातृ-पितृ-संबोग- गान्त् निद्र १, ८

मातृ-भाव- वम् महा ५, १६६;
सार २५०: २३; २५४: १४.

मातृ-मत्- गान्त् वृ ४, १, २-७.

मातृ-लोक^१- केन छां ८, २, २.

मातृलोक-काम- मः छां ८,
२, २.

मातृ-वध- धात् भ १, ११; -धेन
कौ ३, १.

मातृ-श्राद्ध- श्चे नाप ४, ३८.

मातृ-सूतक-संबन्ध- न्धम् मैत्रे
२, ७^०.

मातृ-हन्- हा छां ७, १५, २; ३.

मातृल^१- लाः गी १, ३४; -लात्
गी १, २६.

३मातृ^०-

२मातृ-क.का- कम् मैत्रि ७, ११;
-कया सौ १, २; त्रिता ३, २२;
-का व्रवि ६३; त्रिता ४, ३२; ३५;
दे १७; पाशु १, २; -काम् पारा
१२; गुणो ४२०: ५; ७; ९; -कायाः
त्रिता २, ९.
मातृका(का-आ)दि-युत- तम्
१यौत २१.

मातृका(का-आ)घ- -घाः वृपू
५, ८.

मातृका-पद्यादाद्-भक्षर-

माला- ला त्रिवि ७, ४६.

मातृका-पुटित, ता- -तम् गुपो

४२०: १०; -ताम् गुपो ४२०:
६; ७.

मातृका-माला- लया रार ४, ७.

मातृका-यु(रु>)का- -काम्
पो ६.

मातृका-रहित- -तम् व्रवि ६३.

मातृका-स्थान- -ने गुपो ४२०:
६; ४२१: २.

मातृ-स्थान- -ने गुपो ४२०: ४;
पो ११.

मात्र-, मात्रा- √मा(माने) द.

मात्सर्य- मत्सर- द.

माथुर- मथुरा- द.

√माद्, मादक-, मादन-, √मादि
√मद् द.

मादश- भस्मद्- द.

१माधव- १मधु- द.

२माधव- ६मा- द.

१माधवी- १मधु- द.

२माधवी- ६मा- द.

माधुकर-, माधूकर- १मधु- द.

माध्यदिन-, माध्यस्थ- मध्य- द.

माध्वी- १मधु- द.

√मान् > मीमांस^१, मीमांसन्ते वृपू
३, ३; वृपू २, २.

मीमांस्यन्ते ते ५, ८६.

मीमांसक- -काः सार २७३: १२.

१मीमांसा^०- -सा तै २, ८, १; साम्
छां ५, ११, १; त्रिं १, १.

२मीमांसा^१- -सा सुवा २;
नापू ५, ३६.

मीमांसा-न्याय-विस्तर-
-२ः सौ २८.

मीमांसित- -तम् वृ १, ४, १६.

मीमांस्य- -स्यम् के २, १.

१मान- √मन् द.

२मान- √मा(माने) द.

१-२मान्य-, मानस-, मानिन्-,

मानुष-, मानुष्य-, मानुष्यक-,

मान्य-, मान्यवर्णिक- √मन् द.

मान्य- √मन् द.

मान्य- √मन् द.

*मापया- √मा(माने) द.

*माम-, मामक- अरमद्- द.

माय^१ राउ १, २.

माया^१- -यया धे ४, ९; गौ ३, १९;

२४; २७; २८; २९; ४, ६१;

मना २, ५७^१; वृपू ५, २; ३६;

वृ ९, ३; ८; १३; नाप ६, १०;

रार २, ३२^१; रापू ३, १; शां ३,

१; अक्ष ४, ३३; ३६; ५, ७६;

१आ २९; पाशु २, १०; ३३;

त्रिता ५, १; त्रि ८; दे ९^०;

यो ३, २७; रू ४२; ४९; जाद

१०, २; पं १८; गोल ४१; कृ १०;

वरा ३, १५; सौ २, १; सार

२९०: ८; १०; ११; २९२: ७;

हे १; गु ५४; वपू २, ३^१; त्रिं

२, ७; गौ ७, १५; १८, ६१; -या

प्र १, १६; गौ २, १९; ४, ५८;

वृपू ३, २; ५, २; ३; वृ ९, ४;

५^१; ससा १, ४; ३८; ४०^१; ते

२, ३६; ४, ८; ५, ३३; ६, ५; १०;

६३; नाप ४, ५; सौ ३; श २१;

रार ५, ४; ६^१; सुद्र ३; शा

३, १; महा ५, १३१; ६, ६१; अक्ष

५, ११२; अध्या १५; दे १३^१;

a) पा ४, २, ३६; १, ४५। b) 'महती मही' इति तैश्चा १०, २१, १। c) 'त्रा स' इति अख्या।
अन्यस्य च पठि. कृते अख्या. सति. द.। d) पा ४, २, ३६। e) व्युः = कण्ठाहसवायुजन्यवर्ण-। f) पा ३, १, ६।
g) भाप.। h) = शास्त्रविशेष-। i) राम- > रामाय इत्यस्योत्तरांशः। 'माया' इति निसा. यनि. शोषः द. (अ-
अख्या.)। j) वरा. वैपश् यद.। k) तैश्चा ३, १०, ८, २। l) = बीजाक्षरविशेष-। m) = ही-बीजाक्षर-। n) = ही-बीजाक्षर-।
'मया' इति निसा. यनि. शोषः द.।

पाशु २, १६; १८; ४४; ४५;
 यो २, २१; जाद १०, ७; गोड
 ५६; कृ ४; ५; ११; वरा २,
 ११, ५१; ५२; ७१; ३, १८; सर
 ३, १४; १५; अद्वै ४; १५; म
 ४९; ९; सार २९०:१; २९२:
 ६; काम ४^b; ५^b; व ४२७:
 ७७^{१०}; वपू २, २^३; ३; ३, १;
 ४, ८; पित्र ६, १५; गौ ७, १४;
 -याभिः वृ ५, १९; गौ ३, २४;
 बा ११; वपू २, ३७^d; -याम् श्वे
 ४, १०; वपू ३, २^३; नाप ३,
 ७०; द ६^०; सार २, ३०^०; ५३^०;
 त्रिता १, ७९; ८०; सूता ६, ४; गु
 ५५; चू ३; वपू २, २; पित्र ६,
 १४; गौ ७, १४; -यायाः अव्य १;
 सर ३, १७; सार २२०:७;
 -यायम् सार ३, १४; -याये सूता
 ४, २^३; ३.

माया-कार्य- -यम् ते ६, १००.

मायाकार्यो(र्थ-आ)दिक- -कम्
 ते ५, ३३.

माया-बलस- -सौ १आ २६.

माया-जाल- -लेन १योत ४; योशि
 १, १.

मायाजाल-निकृन्तन- -नम्
 १योत ५; योशि १, २.

माया-ज्ञाना(न-आ)दि- -संज्ञक-
 -के कर १०.

माया-तत्-कार्य- -विलय- -ये
 वरा २, ५२.

माया(या-अ)तीत- -तः आवो २०;
 त्रिपि १, ११.

मायातीत-गुणा(ण-अ)तीत-
 -तम् त्रिपि १, ५^f.

माया(या-आ)त्मन्- -त्मा वृप ८५:३.
 माया-दाम्नी- -नी सार २२०:६.

माया(या-आ)दि- -दिः सार २, ८८.

माया-देव- -वः वपू १, ४.

माया-द्वय- -यम् कालि ४०१:३.

माया(या-अ)धीन-

मायाधीन-स्व- -स्वम् सार
 २९०:२३.

माया-पर- -रम् पित्र २, ७.

माया-परिमोहिता(त-आ)त्मन्-
 -त्मा के १, १२.

माया-प्रकृति- -तिः ते ६, ६३.

माया-बीज- -जम् सार ३, १.

मायाबीज-युक्त- -कम् त्रिपि
 ७, ३८.

माया-ममता(ता-अ)हंकार-दहन-
 -नम् निर्वा २९८:१२.

माया-मय- -यः गौ ४, ६९; -यम्
 मै ४, २; मैत्रि ४, २; वरा ३,
 १५; हे ९; -यात् गौ ४, ५९;

-याय राष्ट्र ४, १२.

मायामयी- -यी सौ ३^५.

माया-मात्र- -त्रम् गौ १, १७; वृड
 १, १०; ११; ५, १^b; नाप ८, १५;

१८; जाद १०, १२; वपू ३, २, ३.

मायामात्र-विकास-

मायामात्रविकास-स्व- -स्वात्
 आचो १९.

माया-मासुत-विभ्रम- -मात् कुं
 १४.

माया-मोह- -हम्^१ अद्वै ८; १४;
 -हौ पित्र ६, १५.

मायामोह-पाश-

मायामोहपाश-तस(>)
 पित्र ६, १९.

माया-मोहित- -तः पित्र ६, १४.

मायामोहित-मानस- -साः पित्र
 ६, १३.

माया-रहित- -तः कृपु २.

माया-रूप- -रम् सार २९०:९.

माया-रुद्धमी-तन्त्र- -न्त्रेण त्रिता
 २, ७१^f.

माया-लेख-समन्वित- -तः वै १,
 ३१.

माया-वश- -शाव श २८.

माया-वाद-मदा(द-अ)न्धकार-
 मुपित- -प्र(ज्ञा)> -ज्ञः भव
 २, ३३.

माया-विग्रह-धारण- -गः कृ १०.

माया-विद्या- -चे राष्ट्र ५, ५.

अध्या ३२.

माया-विन्- -वी शां ३, १.

माया-विनिर्मुक्त- -कम् सार ५, ११.

माया-शक्ति- -क्तिः योशि ६, ४८.

माया-शयल- -लम् वड ४, ६.

माया-शयलित-ब्रह्मन्- -ह्य गोच
 ६७:१४^k.

माया-शरीर- -रः हे ६.

माया-संबन्ध-

मायासंबन्ध-तस(>) कठ ३९.

माया-संभव- -वः पाशु २, १७.

माया-सहित- -तम् गोच ६७:१६.

माया-हस्तित्- -स्ती गौ ४, ४४.

मायिक- -कम् ते ६, ९; -कौ अता ३.

मायिका(क-अ)मायिक-

-काम्याम् सांत् ३, २६.

मायिन्- -यिनम् श्वे ४, १०; -यिने
 ६ १२; -यी श्वे ४, ९.

मायो(या-उ)प(मा)>म- -मम् गौ
 ४, ५८.

१मायो(या-उ)पाधि-

मायोपाधि-भेद- -देन सार
 २९१:१०.

मायोपाधि-यश- -शाव त्रिपि
 ३, ७.

मायोपाधि-विनिर्मुक्त- -कम्
 कठ ३८.

a) 'मा तथा' इति अख्या. । b) =बीजाक्षरविशेष- । c) =देवीविशेष- । d) श्रु ६, ४७, १८ । e) =ही-
 बीजाक्षर- । f) 'तं गुं' इति निता. । g) 'या इति पा.१ यनि. शोषः द. (द्र. निगा.) । h) 'यः इति निता. ।
 i) समाहारे ह्य. । j) 'इमीमं' इति अख्या. । k) 'तं मं' इति J.C. । l) कप. ।

२मायो(या-उ)वाधि^a- -धिः पै २,
२१; ३, १; ऋष्या ३०.
मायो(या-उ)वाधिक- -कः त्रिवि २,
१५; ३, ७.
मायोवाधिक-नारायण- -णम्
त्रिवि ३; ६.
मायापहृद्य^b गोच ६७ : १७.
मायूर- १मयूर- द्र.
मार- /मृ द्र.
मारकत- मरकत- द्र.
१-२मारण- /मृ द्र.
१मारीच- मरीच- द्र.
२मारीच- ३मरीचि- द्र.
मारुत-, मारुति- १मरुत्- द्र.
मार्कण्डेय- मृकण्डु- द्र.
मार्ग- /मृ द्र.
मार्जन-, मार्जनीय- /मृ द्र.
१मार्जरी^c- -रः स्व ६१ : २३; -राः
स्व ६१ : २२.
१मार्जरी-
२मार्जरी^d- -री १संख्या
२, १०१.
मार्जार-भूपिका(क-आ)घ- -यैः
शि ५, ९.
२मार्जा(र<)>री^e- -रि हंपो ११.
मार्ताण्ड^f-
मार्ताण्डा(एड-आ)दि-
मार्ताण्डादि-मान्त्व(उ-आ)-
दित्य-हंस-सूर्य-दिवाकर-तपन-
मास्कर- -राः सुता ५, ५.
मार्दच- मृदु- द्र.
मालती^g-
मालती-द्राम-भूषित-शरीर-
-रः राधा ३, ११.
माला^h- -ला गोठ ५८; वड ५, ३२;

-लाम् दजा १, १७; -लायाम्
वड ६, ३२.
माला-मानुⁱ- -नुः रार २, ९२;
-नोः रापु ४, ४५
मालामनु-वर्ण- -णांत् रार ३, १.
मालामनु-वर्ण-यट्क- -ट्कम्
रार ३, १.
माला-मन्त्र- -न्त्रः रापु ४, ५७;
-न्त्रम् नापु ३, १८.
माला-व(त>)ती^j- -ती सार
२८२ : १०.
माला-ह(स्त>)स्त्वा- -स्ताः कौ १,
४५।
/मालि, मालयते गोठ ५८.
मालिन्^k- -ली वपु २, ४.
मालिनां^l- -नी व ४२७ : ७;
-नीम् त्रिता २, २८.
माल्य- -त्यानि सार २७० : १०.
माप^m- -पैः भ २, २५.
माप-क-
मापक-मापक- -कम् शि ६,
१०२.
माप-मन्-जल- -लम् आच ५.
माप-मा(प्र>)त्रा- -त्राम् कुं १९.
मापा(प-अ)पूपा(प-आ)दि- -दि
१संख्या २, ७६.
मासⁿ- -सः प्र १, १२; त्रिवि ३, ४;
१संख्या १, १; -सम् ते ६, १०९;
त्रिवा २, १२०; शां १, ७, ५०;
इ १३ : १८; -साः तै १, ४, ३;
वृ १, १, १; ३, ८, ९, ५; मना
१, २५; २, ८०५^o; गु २१; गी
८, २४; २५; -साव् ते ६, ८०;
-साव् छां ४, १५, ५; ५, ९, १;
१०, १; ३; वृ ६, २, १५; १६;

शाह ४; नाप ४, १५; १संख्या
१, १; पप ४१९ : १०^p; शा
२०; कथु १, १; आध ३; इ
१३ : १४; -सानाम् जाद ४, ४५;
गौ १०, ३५; -से गर्भ ३^q; मृ १६;
निह १, १२; २१; -से-से यो २,
४७; -सेन सार २३३ : ५; मृ १८;
-सेभ्यः छां ४, १५, ५; ५, १०,
२, ४; वृ ६, २, १५; १६; -सेषु
त्रिवा २, ११२; -सैः मैत्रि ६, २८;
अना २९; १संख्या २, १०४;
-सौ १संख्या १, १.
मास^r- -मासि वृ ६, ४, २२५^r; गर्भ
३^q; कौ २, ८^s; अना ३०; नाप
७; रा ४२३ : २०; ४२४ : १.
मास-चतुष्क- -ष्केण निह १, १२.
मास-तस(ः>) पारा १६.
मास-त्रय- -यात् शां १, ७, १; -त्रेण
गर्भ ३; निह १, ११.
मासप्रया(य-अ)भ्यास- -साव्
१थोत ४४.
मास-द्वय- -यम् त्रिवि ३, ४; -याव्
योचु ९८; -येन गर्भ ३.
मास-मात्र- -त्रम् जाद ६, २९;
-त्राव् निह १, १०.
मासा(स-अ)भ्यन्तर- -रे गर्भ ३^q.
मासा(स-अ)वधि- -धि त्रिवा २,
१२५^t.
मासिक- -कम् व ४३३ : १९.
माहाचमस्य-, माहात्म्य- माहा-
रजन-, माहात्म्य- /मह द्र.
माहित्थि^u- -थिः, -थेः वृ ६, ५, ४.
माहिक- ४महिय- द्र.
माहेश्वर- /मह द्र.
/मि, मिनोति मां ११; वृ २, ७.

a) वय. । b) पा १ अनुपहृद्य-> -यः इति शोधः द्र. (तु. J.C.) । c) व्यु. ? = विडाल- । d) = चित्तविशेष- ।
e) व्यु. ? = देवविशेष- । f) वेपथे यद्र. । g) व्यु. ? = जाली- । h) व्यु. ? = यथा. । i) उप. = १मनु- । j) 'ल्यह' इति
आन., वे., शाब्दा ३, ४ । k) = गणविशेष- । l) तैआ १०, १, २ । m) तैआ १०, ६४, १ । n) 'सि इति निसा.
यनि. शोधः द्र. (तु. अ. आ.) । o) पा ६, १, ६३ । p) ऋ १०, ८४, ३ । q) 'से इति अ. आ. । r) 'साव् इति
अ. आ. । s) 'रेण इति आन., अ. आ. । t) 'धिः इति निसा. । u) व्यु. ? = योत्रप्रवर्तक-श्रुतिविशेष- ।

मिति- -ते: मां ११; वृत् २, ७.

मित- √(माने) द.

१ मित्र^{१०}- -त्र: तै शां^{१०}; मना २, १५^{१०}; नृप २, १७^{१०}; ए १२; अज्ञा १^१; विद्या शां^{१०}; वृत् ४, १७; -त्राय सू १९; सूता ४, ४.

१ मैत्र- -त्रम् गार ४०७ : ६.

१ मित्र-महम्- -०ह: सूता २, ८; ३, १०.

मित्र-रवि-सूर्य-भानु-खग-पूप-हिरण्यगर्भ-सरीच्या(चि-त्रा)-दिव्य-सवित्र(तृ-त्र)क-भास्करा-(र-त्राद्या)>रूप-रूपै: सूता १, ३२.

मित्रा(न-त्रा)दि- -द्वय: सूता ५, ६.

मित्रा-वरुण- -णी मैत्रि ७, ५; ३ ११^६.

मैत्रावरुण- -ण: प्रा ३-४, १; -णम् गार ४०७ : ८.

मैत्रावरुणी- -णी वृ ६, ४, २८.

१ मित्रे(न-ई)श-नाथा(थ-त्रा)-रिमका- -काम् विद्या १.

२ मित्र^{१०}-

मैत्राय(या)>णी^{११}- -णी सु १, १, ३२.

मैत्रि^१- -त्रि: मैत्रि २, २; -त्रिणा मैत्रि २, ३.

३-४ मित्र- √मिद्व द.

मित्रयु^{१०}-

मैत्रिय^१- -०य भव १, ५६; -य: छां १, १२, १; ३; मैत्रे २, १; -येण मै २, ३.

मैत्रेयी^१- -०यि वृ २, ४, १; ५;

४, ५, २; ६; -यी वृ २, ४, १; २; ३; १३; ४, ५, १; ३; ४; १४; १५.

√मिध्(वधा.)

मिधस्(>:)^{१०} अल ४, ८१.

मिधु^{१०} आपें ९; ४; द्वाग २४: ८; बा ६; शौ ५३: ८.

१ मिधुन^{१०}- -नम् प्र १, ४; १५; छां १, १, ५; ६; वृ १, २, ४; ४; नाप ३, ५६^{१०}; ५७^{१०}; पावि १-९;

-नात्-नात् छां २, १३, २; -ने छां २, १३, १; २; -नौ छां १, १, ६.

मिधुनी √धृ, मिधुनीभवति छां २, १३, २.

२ मिधुन^{१०}- -नम् वृ १, ५, १२.

मैधुन- -नम् छां ३, १७, ३; शारी ४; १ संन्या २, ८८; कर् ६; रा ४२५: २३; कथु ३, ६;

-नात् मै ३, ४; मैत्रि ३, ४; मैत्रे १, ३; -नात् क २, १, ३.

मैधुन-त्याग- -ग: शां १, १.

मिध्या^{१०} गी २, ७; ४, ३२; नि ४७; ते ५, ४३-४५; ४७; ५२; ५४; ५५; ५८; ६, ७३; महा ५, १६५;

२ अव ३३७ : ६; योशि ४, ४; १२; पं ३३: सु २, २, १४; गी १८, ५९

मिध्या(ध्या-त्रा)घार- -र: गी ३, ६.

मिध्या-ज्ञान- -ने वरा २, ६८.

मिध्याज्ञान-समुद्भव- -वम् राउ ५, १३.

मिध्या-तर्क- -केंण योशि १, ३४.

मिध्या-त्व- -णाम् मिध्यात्व-कारण- -णाम्

पत्र २, १.

मिध्यात्व-भान- -नात् मै २, ३, ५.

मिध्या-दर्शन- -नम् मै ४, २; मैत्रि ४, २.

मिध्या-दृष्टान्त-हेतु- -तुभि: मैत्रि ७, ८.

मिध्या(ध्या-त्र)ध्यास-वदा- -शात् नि १७.

मिध्या-प्रतीति- -ति: त्रिवा २, ३०.

मिध्या-भूत- -तात् त्रिवि ५, ४.

मिध्या-मनोरम- -नम् मै ४, २; मैत्रि ४, २.

मिधिला^१-

मैधि(ल^१>)ली^१- -लीम् रापु ४, २५.

मिधिला-पुर- -रे महा २, १९.

√मिद्व(वधा)

३ मित्र^{१०}- -त्र: कृ १६.

४ मित्र^{१०}- -त्रम् ते ४, १९; स्व ६२: २; शि ६, १६७; पित्र ५, ६; -त्रा मना २, ७९^{१०}; -त्राणि महा ४, २८; शा ३०; -त्रे जाद १, १६; गी १२, २८.

२ मैत्र- -ग्र: नाप ६, २५; गी १२, १३.

मैत्री- -त्री महा ६, ३०;

वरा १, १३; -त्रीम् महा ५, ७१.

मैत्री-करणा-मुदितो-

(ता-उ)पेक्षा- -क्षणां योय १, ३३.

मैत्र्या(त्री-त्रा)दि- -दिभि: अल ४, १७; सु २, २, २४; -दिवु योय ३, २४.

a) वेप १ यद । = देवताविशेष- । b) प्रा १, ९०, ९ । c) तैत्ति १०, १४, १ । d) श्र १, ४०, ५ । e) श्र १, ५०, ११ । f) पा ६, ३, २६ । g) 'मित्रावरुणा' इति श्र १०, १२५, १ । h) स्यु. १ = गोत्रप्रवर्तन-प्रतिविशेष- । ५०, ११ । i) पा ६, ३, २६ । j) = वेदात्तयोपनिषद्विशेष- । k) स्यु. १ = प्रथमविशेष- (श्र. पा ७, १, २) । l) पा ६, ४, १७४ । m) १ मित्र- + स्वार्षेण इत् प्र. १ । n) वेप १ यद. । o) = मन्मातविशेष- । p) प्रा २. । q) पा ४, ३, ८९ । r) = विप. । s) = सुहृद्- । t) तैत्ति १०, १३, १ ।

मिप्रादिगुण-
 वृषभ-मिप्रा महा ७, ११.
 मिप्रादिगुण-
 मा-मा(माभ->)मि-मि ४
 ५, १, ११.
 मिप्राभृत्-मिप्रा ५, ११; ६
 १७, ११.
 मिप्राभृत्-मि १, १८.
 मिप्राभाषण-भाभाषण, २०.
 मिप्राभृत्-मा पालि ४०२;
 ११.
 मिप्राभृत्-मिः मि ७, १७.
 मिप्राभृत्-मिः मि १५,
 १५.
 मिप्राभृत्-मिः मि १, ११.
 मिप्रा(म-भा)दि-दिपु नाप ६,
 १५.
 मिप्रा(म-भा)घ-घैः मी ४, ३५.
 मिप्रा(म-भा)मुग्रहण-गम् मे
 ४, ५; मी ३, ५.
 मिप्रा(म-भा)मिप्रा-प्राणि पित्र
 १, १४११.
 मिप्रा(म-भा)दि-
 (प्यारणा-ग्ना तारा ८३ : ९.
 मिप्रापु, मिप्रायते पित्र ५, ६.
 मिप्रा(म-भा)दि-पक्ष-क्षयोः
 मी १४, १५.
 मिप्रा(म-भा)द्वादक-कम् नाप
 ७, ११; ११; २, ७९.
 मिप्रा(म-भा)-दः गर्भ २, ५; ते ४,
 १५; राट्ट ४, ५०; निर १, ४;
 -दः गर्भ २; निर १, ४.
 मिप्रा-ममा(भा-भा)स्थि-शोणि-
 त-मिः वरा ५, २१.

मिप्रा-मास-बलेदा(द-घ)-
 पकीर्ण-मै गुया ८.
 मिप्रा-वृद्धि-द्विः ११ग्या १, १;
 कथु १, १; द्विम् नाप ७; ११ग्या
 २, ५९; पप ४१९ : ९.

मिमान-मा(माने) द्व.
 मिमित्त-
 मिमित्त-मध्य(म->)मा-मा
 प्रिता ३, ६.
 मिमित्वा यो १, ६५; वउ ४, २६.
 मेलन-नम् यो २, ५; ६-९.
 मेलन-मनु^०-नुः यो ३, १.

मिश्र-धम् वृ १, ५, ३; मी १८, १२.
 मिश्र-प्रकाश-
 मिश्रप्रकाश-स्व-स्वात् क
 २३.
 मिश्री/भू
 मिश्री-भूत्-तत्प्रिता २, ८
 मिश्रण-गम् वृजा ४, ८.
 मिश्रित-तानाम् वि १७.

मिप्यु(वधा.)
 मिप्यु-प्यु ऐ १, १; प्युतः मै १,
 ५; मैत्रि १, ४; मना १, १४११.
 मिष्ट-
 मिष्टा(ष्ट-अ)सूत-रम्-पूनि-
 (त->)ता-ता सार २८७ : ९.

मिह, मेहति वृ १, १, १.
 मिमिक्षिरे मना २, १२, २१११.
 मिहिक(क->)का-का अक्ष ५, १४.
 मीढवस^०-द्वपः पा ४, ३; द्वपे
 वृ १, १.
 मीढपु
 मीढपु-ट(<त)म-मं म नी

२, १६११; -मै माय मना २, २५;
 २शितं ३१.
 मेप^०-पा छां २, १, १; ४, १, ५,
 १; ५, १०, ६; -पाः वरा ३, ३;
 सार २२४; ४; २६९; १५; -वेन
 कुं १५.
 मेघ-घोष-पः कृ १७.
 मेघ-प्यनि-निः जाद ६, ३६.
 मेघ-नाद-दः १६.
 मेघ-वत् महा ५, १०१.
 मेघा(घ-अ)पाय-वे नाद ३०;
 पै ३, १; कलि २.
 मेघा(घ-अ)भ-भम् गोपु ८.
 मेघा(घ-उ)परि सार २६४; २२.
 मी(हिंसायाम्), मीयते, अभिमत^१
 कौ ३, १.

मीन^१-
 मीना(न-आ)घ(दि-अ)घ-भम्
 सुसु ९.
 मीमांस, मीमांसक-, मीमांसा-
 मीमांसित-, मीमांस्य-
 मात्र द्व.
 मुकुट^१-टै रुजा १, १८.
 मुकुटा(ट-अ)द्वाद(द-आ)दि-विधि-
 घा(घ-अ)कल्पो(व्य-उ)ज्जव-
 ला(ल-अ)द्वाद-द्वाद २, ४.
 मुकुन्द^१-न्द नाउ ३, २०; न्दः
 हे ४; न्दस्य तुल ७० : १५.
 मुकुन्द-प्रि(व->)पा-याम् व
 ४५५ : २०.
 मुकुर^१-दं महा ५, ५५.
 मुकुल^०-
 मुकुलिन(>)ता-ता यो ३, १९.
 मुकुली/क, मुकुलीकरोति वृजा
 ७, ८; रुजा ३, १.

a) 'तण्णोदकम्' इति अश्या. । b) वैप१ यद. । c) =वकार-बीजाक्षर- । 'भेदः' इति निसा. ? यनि.
 शोषा द्व. (वृ. अश्या.) । d) उप. = १मनु- । 'मनुम्' इति अश्या. । e) ष्ट १०, १९०, २ । f) पा. ? 'मिमिक्षे' इति
 प्र. २, १, ११; jC. । g) =हिम- । h) मा १६, ११ । i) ष्ट १, ४३, १ । j) 'ते' इति निसा., शान., 'मीयते'
 इति अश्या. य यनि. शोषः द्व. (वृ. शांभा ५, १) । k) व्यु. ? =मन्स्य- । l) व्यु. ? =किरीट- । m) व्यु. ? =रूपण- ।
 n) व्यु. ? =वर्षण- । o) व्यु. ?

मुकुली-कृत्य वरा ५,३३.
 १मुक्त-√मुच् द्र.
 २मुक्त(क>)का^{1a}-का: महा ६,१६.
 मौक्तिक-कम् शि ६,१००;
 सिशि ३८२: २१; -के जाद १,
 ११.
 मौक्तिकी-कीम् द ३.
 मौक्तिका(क-था)घा(दि-था)-
 भरण(ण-थ)लंक(त>)ता-
 -ता सी ५.
 मुक्ता-स्रचि(त>)ता- -ता सार
 २६७: १८.
 मुक्ता-मुच्छ-च्छै: सार २२५: २;
 २३३: १०.
 मुक्ता-गुम्भित-हार-वली-द्वय-
 -वौ सार २४५: २.
 मुक्ता-मणि-विभूषित-सम् घ्या
 २८.
 मुक्ता-यू(धक>)थिका--का. सार
 २७०: २३.
 मुक्ता(का-थ)लंका(र>)रा- -रा
 सौ १,३.
 मुक्ता-लता- -ता: सार २२५: २;
 २३३: १०; २४२: ५; -ताभि:
 सार २३७: १२.
 मुक्तालता-प्रथि(त>)ता- -ता
 सार २५३: १०.
 मुक्ता-हार-रस्य महा ३, ४१; या
 २, ७.
 मुक्ताहार-प्रलम्बिन्- -म्भिभि:
 शि ६, १४८.
 मुक्ताहार-विभूषण- -णम् द
 १४.
 मुक्ताहार-समायु(क>)का-
 -क्ता सर ३, ३.

मुक्ति-, मुत्तवा / मुच् द्र.
 मुल^b-खम् ई १५; ऐ १-२, ४; छां
 ४, २, ५; १४, २; वृ १, ५, २;
 ५, १४, ८^१; १५, १५^०; ६, ४,
 ९-११; २१; खे ४, २१; मैत्रि ६,
 ३५^०; हं १४; गर्भ ५; मना २,
 ३५^०; ८०^०; कौ २, ९^१; वृ १, १,
 १५^१; वृजा ३, ३१; ४, १; ५; ११;
 मुबा १५^०; ते ६, ६; त्रि ७७;
 नाप ६, १; द १९; अक्ष २, ३;
 यो १, १४; २६; ३२; त्रि ११;
 आच ८; पि ६; शि ६, १४६;
 गार ४०८: ७; गा २६; २७;
 गु १६; पी ४२२: १; व ४३६:
 ११; १४; व ६, १६; गी १,
 २८; -खा नी २, ११^०; -खात्
 ऐ १, ४; छां ८, १३, १; वृ १,
 ४, ६; कौ ३, १^१; सी २०; सु १,
 १, ४१; व ३, १७; ४८; ४९;
 -खानि शि ६, १२४; गी ११,
 २५; -खे गर्भ ५^१; वृजा ४, ३;
 ते १, ४^१; प्रा २, १; इ १९: १५;
 वं ३११: ५; व ४५९: ६;
 व ६, २९; भव १, ४३; गी ४,
 ३२; -खेन छां ३, ६-१०, १;
 ३; ४, २, ५; वृ १, ५, २, ६, ४,
 ९-११; २१; कौ २, ९^१; व्या ६६;
 त्रिबा २, ६४; योच् ३६: ३७;
 शां १, ४; ७, ३०; योशि १, ९५;
 यो १, ८३; शि ७, ६९.
 मुल-तस()> तै ३, १०, १^१.
 मुल-त्रय- -त्रयम् शि ६, १४०.
 मुल-नासिका- -नाथ्याम् प ३, ५.
 मुल-नासिका(का-थ)शि-धोत्र-
 -त्रम् नि ६, १३; प्राणि गर्भ ३^१

मुल-बीज-सप्तक-कम् रथा ४.
 मुल-मण्डल- -लम् सार २६५: ८;
 व ४६६: ५.
 मुल-युक्त-कम् रुजा २, १.
 मुल-वत्- -वात् अन्य २.
 मुलवती- -ती मै ५, ५; मैत्रि
 ६, ५.
 मुल्य, ख्या- -ख्य: छां १, २, ७; ५,
 ३; पहे १^१; १ योत २८; अय्य ५;
 व १, २३; २, १३; ३८; ५, ५०;
 -ख्यम् वृजा ५, ३; सुबा ९^१;
 १५; ते ४, २६; ५, ४४; यो १,
 ८; ७८; सार २७९: १७; सिशि
 ३८१: १४; व ६, ३५; गी १०;
 २४; -ख्यया अक्षि ११; -ख्या
 १ योत २९; त्रिबा २, ३१^०; -ख्या:
 शां १, ४; जाद ४, ६; ८; २५;
 -ख्यान् त्रिबा २, २^१; -ख्याम्
 गो ५; -ख्याय पा २, १; ६, ६;
 -ख्येन २५ ३३: २०५^०; -ख्यौ
 पा ५, ९.
 मुल्य-स(म>)मा- -मा: जाद
 ४, १; गु १.
 मुल्य-स्व- -स्वम् गी ३, १४;
 -स्वात् म ४, ३, १२.
 मुल्य-द्वार- -रम् वृ १, ११.
 मुल्य-वस्तु- -स्तु ना ३, ४.
 मुल्य-विज्ञान-विग्रह- -ह: ते
 ६, ६८.
 मुल्य-वृत्ति-काम- -म: नाप
 ३, ७७^१.
 मुल्या(त्य-त्रा)धार- -त्री पा
 ५, ९.
 मुल्या(त्य-त्रा)मन्-महो-
 (हा-त्)दय- -य: ते ६, ६८.

a) व्यु. १ = मणि- । b) व.प्रा. वै ११ व. । c) मा ४०, १७ । d) तैत्र्यासा १०, ३५ । e) तैत्र्या १०, ६५, १ ।
 f) मन्त्रगतस्य सर्वतोमुख-> -खम् इत्यस्याऽऽतिमोऽवयवः । g) अ १०, ९०, १२ । h) मा १६, ११ । i) 'अम्
 इति अच्चा । j) 'लात् इति अच्चा, 'अम् इति अच्चा । k) 'व्यानि इति अच्चा । l) प्राण्यत्रैतद्वयद्वयः
 (या २, ४, २) । m) 'भासाक्षिणीधोप्राणि' इति अच्चा, 'नासाक्षिधोप्राणि' इति अच्चा । n) 'व्यात् इति निमा. ।
 o) 'खेन इति गोमा १, १, २३ । p) 'सिक्का इति निमा. यन्ति, (प्र. अच्चा) ।

मुख्यो(ख्य-उ)पहार - ३: राप्
५,७.

मुखः* ष ३२.

मुख्य- मुख- द्र.

सुग्ध- /सुह् द्र.

✓सुच्, > अ, मोचि, सुसुध, मोक्ष > क्षि,

सुसुग्धि मना २, ७३; चा २२.

सुञ्चति वृ १, ५, १७; नाद २२;

योच् ९०; ९१; १०९; योशि ५,

२६; सुञ्चन्ति गह २५; सुञ्चन्तु

प्रा १, १५; २५; सुञ्चतम् लि

३१०; २५; अमुञ्चः मना २,

४८; सुञ्चत् नाद १९.

मोक्षयसे गी ४, १६; ९, १; २८;

सुक्षीय मना २, ५६; त्रिता

१, ८५; ४, ११; रशिसं २४; ५;

५व ४३०; २; ४३८; १७;

४३९; ४; १४; ४४०; १; ११;

२१; ४४१; ९; १९; ४४२; ७;

१८; ४४३; ५; १५; ४४४; ९;

१९; ४४५; ६; १७; ४४६; ४;

१६; ४४७; ३; १४; ४४८; २;

१३; ४४९; १; ११; १८; ४५०;

२; ९; १६; २३; ४५१; ९; १६;

२३; ४५२; ८; १६; ४५३; १;

६; १२; १८; ४५४; १; ७; १५;

२१; ४५५; ५.

सुच्यते क २, ३, ८; ङां ६, १६,

२; खे १, ८; २, १५; ४, १६;

५, १३; ६, १३; नाष्ठ; अवि २०;

द्र ३, १६; वृजा ७, ७; वृप् १,

११; छ २५; आबो १; नाप ३,

६२; ७६; ९, ७; १०; महा ४,

१२४; १२६; योशि १, १६, ६,

३१; त्रिता ४, २; ५, ९; म २,

२०; जाद ६, २७; २८; वरा १,

१७; २, १६; २३; कलि ३; इ

१८; २२; सं २०; शि ४, ५४;

७, ९९; तिशि ३८१; ५; सूता

२, २३; हे १; गु ५९; ७१;

भव २, ५; ४९; अवि ९; सांका

६२; मुच्यन्ते वरा ४, ४४; शि

१, ३; ३१; ३३; गी ३, १३;

३१; मुच्येत मै ४, ५; मैत्रि ६,

३४; मैत्रे १, ७; वरा ३, १३;

२५; शा २; सूता १, ४१; भव ३,

१५; मुच्येध्वम् वृ ३, ८, १२;

मुच्येयम् मु १, १, ६.

मोचयति वृप् १, ११; मोच-

यामि भ २, २०; मोचयेत् गह

२५.

मोक्षयन्ते आग्र ४.

मोक्षयिष्यति ते ३, ७२; मोक्ष-

यिष्यामि राउ ३, ६; गी १८, ६६.

१ मुक्क, का- -क्तः गौ २, ३२; मैत्रि

४, ४; ६, ३०; मैत्रे २, १२; २३;

३, २२; नि ५५; ते ३, ४०; ४,

३३; ३७; ३८; ४७; ४८; ५३;

५४; ६२; ६८; ७९; ५, ६१; नाद

५२; ध्या ७०; वृउ ९, ८; आबो

९, नाप १, ५, ७; ३, ९, ३०;

मं २, ३, ६; ५, १, ९; द २१; श

३६; त्रिवि २, १७; ८, १९;

अता ५; १२; राउ ३, १; ८; वा

२६; सुद १, ९; ४; शां १, ७,

३७, ३, ४; पै ४, ४; महा २, ७२;

४, ६७; ९२; ६, ८; ६४; योशि

१, १८; ५४; १२३; १६४; ५,

६२; ६, १; ४४; ६३; १संन्या २,

५१; अज २, १५; ५, ६८; ९०;

१०१; १०५; अध्या ११; १आ

२०; ३१; पाशु २, ३१; १अव

८; त्रिता ४, १२; ५, १०; म २,

२३; जाद ६, १२; पं २४; गोप्

१०; गोउ ४०; ६०; वरा २, ७;

४, ३४; ५, ५९; ह १२; दत्ता

३; सर ३, ३३; सु १, १, ६; २,

२, १९; योरा १४; क ६४;

११; वि १, २५; शि ४, ५५; ६,

११३; हे १४; रा ४२६; १;

विद्या ४; १शैल ७; ३; अवि

१०; वउ ५, ४९; ६, ५१; सांत्

१, १५७; ब्रह् ४, ४, २; गी ५,

२८; १२, १५; १८, ७१; -क्तम्

वृउ ९, १७; शु २, ५; ते १, २;

८; मं ५, १, ९; महा ६, ४६; सु

२, २, १६; पा १०, ३; गु ३४;

अवि २; गी १८, ४७; -क्तयोः

अज १, २५; त्रिता ३, ५; -क्तस्य

नाप ३, ५४; सांत् ६, १७; गी ४,

२३; -क्ता महा ६, ५०; अज

५, ६; -क्ताः गी ४, ९८; वृजा ७,

३; राउ ३, ४; ७; महा ५, १०;

म २, २८; गोउ १८; व २६; गु

५८; -क्ते वउ ५, ४५; -क्तैः महा

४, ५७.

मुक्क-किविप- -पः मना १,

१३५; -पाः म २, २९.

मुक्क-ता- -ताम् महा ५, ९४.

मुक्क-स्व- -स्वात् वउ ७, २.

मुक्क-देह- -हः १आ १७.

मुक्क-बद्ध- -द्वयोः सांत् १, ९३.

मुक्क-मत्सर- -रः महा २, ५०.

मुक्क-सङ्ग- -ङ्गः गी ३, ९; १८,

२६.

मुक्क-साकार- -रः त्रिवि २,

६; ७.

मुक्का(क्त-आ)त्मन्- -त्मनः ताप्

१, ९५

मुक्का(क्त-अ)मुक्क- -क्तयोः सांत्

५, ४७.

a) पा. १ मनस् -> -नाः इति शोधः द्र. (वृ. सस्य. टि. सर्व-नात्-> -त्म्) । b) अ १०, ७३, ११ ।

c) शौ ६, ९६, १ । d) अ १०, ९७, १५ । e) अ १०, ७४, ३ । f) शौ ७, ५५, १ । g) अ ७, ५९, १२ । h) उ

इति अच्चा. । i) 'अजम्' इति आन., 'पूगम्' इति अच्चा. । j) 'क्तये' इति अच्चा. । k) तैश्चा १०, १, १३ ।

मुक्तामुक्त-वपुस्- -पुः अन्न
५, ९.
मुक्तामुक्त-विवर्जित- -त्तः
ते ४, ६५.
मुक्तामुक्त-स्वरूपा(प-ब्रा)-
रमन्- -रमा ते ४, ६५.
मुक्ता(क्र-ब्रा)सन^{१०}- -नम् त्रिन्ना
२, ४६९^{११}; श्रां १, ३, ९९^{१२};
जाद ३, १; ८९^{१३}; ९९^{१४}; वरा ५,
१६.
मुक्तासन-सुख-गोष्ठी- -ष्टी
निवा २९७ : ६.
मुक्तो(क्र-उ)पमोग- -गः सांस्
६, ४४.
मुक्तो(क्र-उ)पसृप्य-व्यपदेश-
-शात् वस् १, ३, २.
मुक्ति^{१५}- -क्तयः सार २५७ : २०;
२८५ : २१; -क्तये मं ५, १, १; शां
१, ५, ३; सु १, १, ५; -क्तिः ४३, १,
३-६; त्रिवि ३, १०; मैत्रे २, १६^{१६};
वृजा ७, २; ते २, ४३; भावो १९;
नाप ५, १, ३; २; त्रिन्ना २, १५८;
मं २, ३, ६; त्रिवि ८, ११; पै ४,
२३; महा ५, २; २३; २६; ६,
७७; योशि १, १; १४०; १४४;
१६२; १६३^{१७}; ६, २६; ४२; अन्न
२, १८; ५, ८५; पायु १, २६; पत्र
२; त्रिन्ना ५, १; वरा २, ५७,
५, ८; ह ९; सौ १, ३; सु १, १,
१५; १७; २३; २५; सार २९१ :
१३; शि ७, ३८; अवि ३; सांस्
३, २३; २५; ५, ७४; ८५; ६, २०;
-क्तिम् मैत्रे २, ३; २०; सु १, ६;
एक १२; त्रिनि २, ६; रार २,
८७; राउ ३, ३^{१८}; गोड २६; वरा
१, १; ४, ४१; सु १, १, २०, ४३;
शि १, ३०; २, २०; ३१; ५.

२६; ६, ९३; १२८; ७, २८; ७३;
७४; ९८; भव ५, २३; वपू १,
४; वउ ६, ४८; -क्तः १ अव ९;
भव ३, १४; -क्त्यै त्रिवि २०; मै
४, ४, ११; त्रिन्ना ५, ३; अवि
२^{१९}; शा १.
मुक्ति-कर- -रम् १ योत ५.
मुक्ति-कल्पक-तरु- -रवे त्रिवि
७, ४३.
मुक्ति-कल्प-तरु-वन- -नैः
नि ४, ४; ५, १०.
मुक्ति काम- -मानाम् म २, १६.
मुक्ति-क्रम- -नम् पायु १, ३१.
मुक्ति-गोहि(र>)नी- -नी कृ ३^{२०}
मुक्ति-प्रतिय-संचय^{२१}- -यम् ते
१, १३.
मुक्ति-तारक- -कम् १ योत ५^{२२}.
मुक्ति-द, दा- -दः रार ५, ११;
वा ७; गोच ६६; ५; -दम् रार
५, ११; १४; -दामहा ५, ११३;
क ६३ : १४.
मुक्ति-फला(ल-अ)नियम- -नः
वस् ३, ४, ५२.
मुक्ति-भाज- -भाक् मं १, १,
११; पत्र ३, ४; १२; -भाजः वरा
४, ३४.
मुक्ति-भाजन- -नम् योन् ४^{२३};
-नाः शि १, ३६.
मुक्ति-मण्डप-संज्ञा-
मुक्तिमण्डपसंज्ञित- -त्तम्
भ २, २८.
मुक्ति-मार्ग- -मोत् नाप ६, १७.
मुक्तिमार्ग-प्रयत्नक- -कः
नाप ३, ४.
मुक्ति-रूप(>)वा- -वा योशि
६, ५५.
मुक्ति-भूति- -तिम् वृजा १, १.

मुक्ति-सहित(>)ता- -ताः योरा
१९.
मुक्ति-साधन- -नम् वा ५; शा
१०; गोच ६६ : २.
मुक्ति-सिद्धि- -द्धये राउ ३, ५.
मुक्ति-स्थान- -नम् भ २, २८^{२४}.
मुक्ति-स्वरूप- -पम् लि ३०९ : २
मुक्ति-हीन- -नः मैत्रे ३, २२^{२५}.
मुक्ति-हेतु- -तवे योरा ७.
मुक्तिहेतु-स्व-
मुक्तिहेतुवा(व-अ)-
भाव- -वात् मं २, ३, १.
मुक्ति-हेतु(क>)की- -कीम्
नाप ३, ७२^{२६}.
मुक्तय(क्ति-अ)र्थ- -र्थम् भ २,
२८; शि १, २८; -र्थे सु २, ५.
मुक्तयु(क्ति-उ)पाय- -यः नाप १.
मुक्त्वा त्रिवि २१; त्रिन्ना २, १०८;
नाप ३, ६६; योशि १, १२७;
१ संख्या २, ८४; जाद ६, १८;
सार २९२ : ११; नी ८, ५.
मुक्त्व- -ञ्च ५५ ६९; गोच ४०
मुमुक्षा- -क्षा त्रिवि १०; वरा २, ४.
मुमुक्षु- -भयः वृ २, १७; राउ ५,
३; भ २, २९; सु १, ३, ६; -छुः
थे ६, १८; गौ २, ३३; वृ १,
११; वाना १०; १ योत १५;
नाप ६, २१; ७; त्रिवि ८, १८;
वा ३५; पै ४, १; योशि १, १४;
१ आ ३१; पत्र ३, ३; १ अ ५;
त्रिन्ना ५, १०; गोच २२ : २३;
वरा ४, १; जाच १०; गु ७२;
अभि १०; -सुणा त्रिवि ३;
योशि १, १५; त्रिन्ना ५, १; अवि
३; -सुभिः १वा ९; अभा ५;
त्रिवि ७, २०; महा ४, ७५; योशि
१, ६६; १ संख्या २, ६८; व ४७.

a) = योगागन्तव्योप- । b) क्तः इति निगा. दनि गोचः द. (प. चण्णा.) । c) मो^२ इति चण्णा. । d) ना^२ वपू. । e) क्त मण्डप इति चण्णा. मुनिमण्डप इति चण्णा. मंदि. । f) मण्डप इति चण्णा. । g) मुक्त्वा इति चण्णा. । h) मुक्त्वा इति चण्णा. । i) हेतु इति चण्णा. ।

रुह ३७; पं ३५; वरा २, ५६;
 सं ८; १९; कधु ३, ७; गी ४,
 १५; क्षणाम् नाप ८, २०; रा
 ५, १६; सु १, १, २६; आपू ८;
 नापू २, ६; क्षोः मैत्रे २, २६;
 पत्र २.

सुमुक्षु-त्व-

सुमुक्षुत्व-प्रदायि(न्>)नी-
 नी अञ्ज ५, ८१.

सुमुक्षुत्वा(त्-श्चा)दि-
 वजित- -तः ते ४, ७२.

१मोक्ष^१ - -क्षः नि९; ४०; ४२^१;
 शु १, १३; ते ४, १५; ५, २४; ४४;
 ६१; घ्या ९३, १५; निर्वा २९८;
 १५; त्रिवि १, १; ५, ४; ८, ४; १२;
 १४; मुद्र १, ७; पै २, ५२; महा २,
 ३९; ४१; ४, ४९; १०१; ११६;
 ५, १७; योशि १, १२४; ६, ५८;
 अञ्ज २, २३^१; २४; २५; ३७; ४;
 ५६; ५, १०; अध्या १२; जाद
 २, ४; सु २, २, ६८; मार २९१;
 १४; लि ३११; ९; रा ४२६; ३;
 चक ११; १कौल २; ४; ५; ३; २;
 ३; ६; ३; ७; २; २कौल ३; ४; ८;
 -क्षम् मैत्रि ६, ३४; त्रिवि ५^१;
 बृजा ३, ३४; ते ३, ७४; नाप ३,
 ३५; योचू ११०; त्रिवि ८, १२;
 १३; रापू ५, ८; १०^१; पै २, ५१;
 मि ३; ५; ७; ९; महा ४, ८८;
 योशि १, २५; ६, १६; अञ्ज ५,
 ४; प्रा ४, १^१; गौ ३ ३०; ४५;
 ६०; ऊ ६४; ९; गौच ६७;
 १९^१; २१; लि ३११; ९; वर्ष
 ३११; ४; २दिसं ३७; वाम
 २२; गी १८, ३०; -क्षस्य गौ ४,
 ३०; मुद्र १, ९; पत्र ३, १; २कौल
 १; सांस् १, ५; क्षात् लि ३०९; ११;
 २कौल १; -क्षाय मं २, ४, ५; महा

५, ११; ६, ५६-५७; योशि १,
 ५१; अञ्ज २, १; कालि ४०२:
 १६; -क्षे वि ३०.

२मोक्ष^२-

मोक्षी/भू, मोक्षीभवति
 जा १; राउ १, १; त्रिता ४, १२.
 मोक्षक- -कम् ते २, ४०.
 मोक्ष-कर- -रम् रापू ४, ६५.
 मोक्ष-कर्मन्- -र्माणि १योत १५;
 योशि १, १३.
 मोक्ष-काङ्क्षा- -ङ्क्ष्या रा २, ५.
 मोक्ष-काङ्क्षिन्- -ङ्क्षिणः १संन्या
 २, ७०; -ङ्क्षिणाम् भव २, ६८;
 ३, ५; -ङ्क्षिभिः गी १७, २५.
 मोक्ष-कारण- -णम् लि ३०९; १.
 मोक्ष-क्रम- -मम् पाशु १, १७.
 मोक्ष-ता- -ता ते ५, २४.
 मोक्ष-द, दा- -दः त्रिवि ५११^१;
 ५३१^१;
 ५३१^१; सा २७; त्रिवि १, १;
 मुद्र २; योशि १, ५३; -दम् १योत
 १४; मुद्र २; योशि १, १३; योरा
 १७; गौच ६८; १६; -दा घ्या
 ६३; योचू ३३; ४४; -दाय सार
 २६१; ७; ११.
 मोक्ष-दायक- कः घ्या १७.
 मोक्ष-दायि(न्>)नी-नी तुल
 ७१; १; नापू २, १४.
 मोक्ष-द्वार- -रम् अना २७; वृजा
 ६, १२; नृपू ५, १; घ्या ६८;
 योचू ३९; शां १, ७, ३७; त्रिता
 २, ३६; -रे महा ४, २.
 मोक्ष-धर्म- -मार्त् सार २३६; ३.
 मोक्ष-नामन्- -न्ना १संन्या २,
 ४२^१.
 मोक्ष-निधि^१- -धये त्रिवि ७, ४३
 मोक्ष-पथ-क्रम- -मम् महा ४,
 ३९.
 मोक्ष-परायण- -णः नाप ४, ८;

गी ५, २८.

मोक्ष-प्रकार- -रः, -रम् मुद्र २.
 मोक्ष-प्रद- -दः सं १९; -दम्
 रा ३, १; ली ३, १; रा ४२५;
 २३; -दाय व ४५६; १०.

मोक्षप्रद-त्व- -त्वम् मुद्र १, ३
 मोक्ष-प्रदायक- -कः ते १, १९;
 वरा ५, ६८; -कम् नाप ८, ३.
 मोक्ष-प्रपञ्च-ज्ञान- -नम् त्रिवि
 ६, १.

मोक्ष-प्राप्ति- -प्तिः नापू ४, १४.
 मोक्ष-फल-द- -दम् मं १, ३, ५.
 मोक्ष-मन्त्र- -न्त्रः जा ४; या
 १, १; -न्त्रैः नाप ३, ७७^१.
 १मोक्ष-मार्ग^१- -मम् योशि १,
 १४५; -मो योशि १, ११९.

मोक्षमार्ग-स्वरूप- -पम्
 त्रिवि ५, ३.

मोक्षमार्गै(र्ग-ए)क-साध-
 (ना>)न- -तः पप ४१८; ३.
 २मोक्ष-मार्ग(र्ग>)र्गा^१- -र्गा शां
 १, ४.

मोक्ष-रूप- -पः ते ३, ४०.
 मोक्ष-लक्षण- -णम् मैत्रि ६,
 २०^१; ३०; त्रिमा २, २८; त्रिवि
 ८, ४.

मोक्ष-खड्गो- -क्षमोः नापू २, ६.
 मोक्ष-वत्- -वात् महा ६, ३५;
 अञ्ज ५, ४७; नाउ ३, १३.
 मोक्ष-वाच्- -वाचम्(इचः^१) वि
 २९.

मोक्ष-विक्ष्र- -क्षेभ्यः त्रिवि ८, १२.
 मोक्ष-शास्त्र- -स्त्रम् गर्भ ५^१.
 मोक्ष-साधक- -कः रा ४, ११.
 मोक्ष-साधन- -नम् त्रिवि ५, ३;
 पत्र ३.

मोक्षसाधनो(न-उ)पदेश-
 विधि- -धिः सांस् १, ७.

a) 'ध्यानम्' इति आन. । b) अर्थोऽर्थादित्वात् अच् प्र. (पा ५, २, १२७) । c) = आचार्यभेदविशेष- । d) 'मा इति निसा. । e) 'न्त्रः इति अच्चा. । f) तस. । g) वस. । h) 'णः इति मात. । i) पा. यनि. शोधः द्र. ।

मोक्ष-साध्याय-दायि(रु)-
नी- नीम् अत्र १,३.
मोक्ष-सिद्धि-द- दः महा ६,
५८.
मोक्ष-स्वरूप- यम् त्रिवि ५,३.
मोक्ष-हीन- नः मैत्रे ३,२२.
मोक्ष-हेतु- तत्त्वे योशि १,६६;
-तुः पै ४,१९; महा ४,७२; म
१,८; वरा २,४३.
मोक्षा(क्ष-आख्या)ल्य-
-ल्यम् अत्र ५,५३.
मोक्षा(क्ष-आ)ल्यम्- रत्ना ते ४,
३६.
मोक्षा(क्ष-आ)नन्दै(न्द-ए)क-
सिन्धु- न्युः आबो ४.
मोक्षा(क्ष-अ)पेक्षिन्- क्षी पत्र
३,१४.
मोक्षा(क्ष-अ)यं- यम् सि ७,
७४.
मोक्षार्थिन्- र्थिनाम् सि १;
-र्थिभिः क ६४ : २; -र्थी नाप
४,२८; सि ७,११७.
मोक्षार्थि-त्व- त्वम् सु
२,२,६८.
मोक्षा(क्ष-आ)भ्रम^१- भाव,
-मे शा २८.
मोक्षा(क्ष-आ)स्था- स्थाम् महा
६,५३.
मोक्षिन्- क्षी वृजा ७,१; ता
१,१; दत्ता १,६; ७.
मोक्षे(क्ष-इ)च्छा- -च्छा पै २,५०
मोक्षे(क्ष-ए)क-कारण- णम्
१कील २ : ३.
मोक्षे(क्ष-ए)क-सिद्धि- -धिः
आप् ८.

मोक्षो(क्ष-उ)पगमन- नम् सि
१,१८.
मोक्षो(क्ष-उ)पदेश- शात् अम्
१,१,७.
मोक्षो(क्ष-उ)पलब्धि- -धिः
म १,१.
मोक्षो(क्ष-उ)पाय- -यः त्रिवि ५,
३; आवा २; -यम् सि ७,११६.
मोक्षक- कः म २,१७.
मोक्षन-
मोक्षना(न-अ)वधि- -धि वरा
२,७४.
मुञ्चत्- मुञ्च ६.
मुञ्ज^२- -शात् क २,३,१७.
मौ(ञ>)क्षी- -जीम् आठ ५.
मौक्षी-कौपीन-सहित- तम्
रा २,१०६.
रमुञ्ज^३-
मौक्षाय(न^१>)नी^१- नी गु ३.
मुण्ड^४>मुण्ड,मुण्डयेव शा २०.
मुण्ड^५-
रमुण्ड^६- -ण्डः जा ५; नाप ३,
८६; वा २,१; -ण्डाः आथ ४
मुण्ड-भाष- -भाष शा २०.
मुण्डिन्- -ण्डी नाप ६,२४; वरा
१,१७; शा १८.
मुण्डन- -नेन नाप ५,२.
मुण्डित-
मुण्डित-मुण्ड- -ण्डः गुणो
४२१:८; पी ४२२ : २०.
मुण्डित-शीर्षक- -कः भव १,
५५
मुदि^७>मोदि, मोदते क १,१,१२;
१८; २, १३; मैत्रे २, २२; पर्व
४^१:४ ३; रा४४,२२; गोशि ६,
६७; अरि ४; यो १,८६; वि२०:

शि ६, १८; ५५; १८; १९; १०१;
१०३; १९९; २३९; २५३;
मोदन्ते सार २२५ : ५; २शिर्ष
२५; हे ५; मोदस्व ते ४,८१.
मोदिष्ये गी १६,१५.
मुद- मुदः व ४, ३,१०^१; मुदम्
१योत् १३३; हे १४; मुदा शु
१,७; ते ६,११०; सार २५४:
३; ६; शि ६, ११४.
मुद^१-
मुदा(द-अ)घृत- -तः ते ५, ६१.
मुदा-
मुदा(दा-अ)न्वित- -तम् ग ५.
मुदि-
मुदिता- -ता वरा १,१३.
मुदिता-मुदिता(त-आ)ल्य-
-ल्यः मैत्रे ३,१६.
मुदित- -तः अलि ३५; -ताः महा
४, १७.
मुदित-मानस- -सः महा २,१७.
मुदिता(त-आ)ल्यम्- -ल्यम्
महा २,२८.
मोद- -दः ते २,५,१; ते ४,२२;
१अव ३; -दम् नाप ३,७७^१.
मोद-प्रमोद-रूपा(प-आ)-
ल्यम्- -ल्यम् ते ४,६७.
मोद-प्राव- -प्राव पा ८,१.
मोदादिनिधायित^१- -तः ते
४, १५.
मोदिन्- -दी मैत्रि ६, ३३.
मोदिनी^१- -नी भाप ३९,८ ९
मोदक^१- -कः वा २,५.
मोदक-पुष्क-लान-सन्तु-रम्भा-
फल(ल-इ)क्षु-मारीकेला(त-आ)-
ल्य- -ल्यम् व ४, ४५.

a) = संन्यासायम् । b) वैप १ म. । c) 'कञितम्' इति कान्, कण्ठा । d) मु १ = गोपयवर्ष-श्रुति-
विशेष- । e) पा ४, १, १९ । f) = द्वायवर्षनागाविशेष- । g) = शिरस्- । h) = संन्यासिन्- । i) सृष्टमा इति
कण्ठा । j) 'मुण्डेन' इति कण्ठा । k) 'मोदय' इति कान्, यनि, शोषः इ. (प्र. निगा., कान्, मेटि.) । l) कः प्र.
(पा ३, १, १२५) । m) निसा! मोक्ष-द-> -दम् इति शोषः इ. (प्र. कण्ठा) । n) मोदः प्र इति कण्ठा मेटि. ।
. 0) पा. १ 'मोदाशोद्विपरिण-> -ता' इति शोषः इ. (प्र. कण्ठा, मेटि.) ।

मोदक-सहस्र- -लिंग ग १८.

मोदन- -नम् त्रि ४.

मोदनीय- -यम् क १,२,१३.

मोदमान- -नः छां ६, ११, १; घृ ४,३,१३; -नाः भ २,२८.

मोदित- -सम् तं ५, ५६; -ताः कृ ३.

मुद्गर^१-

मुद्गर-दण्डा(एव-आ)द्य- -घैः पै २, ४४.

मुद्गर-पारा- -शौ पी ४२१: ३.

१मुद्गल^२-

मौद्गल्य^१- -स्यः तं १,९,१; वृ ६,४,४; -ल्यम् गार ४०७: १५.

२मुद्गल^२- -लम् सु १,१,३५.

मुद्गलो(ल-उ)पनिपद्- -पदि मुद्र २.

१मुद्र(>)द्रा^३-

-द्रया ध्या ८३; त्रिवि ५६; -द्रा ध्या ८०; ८२; ८३;

१योत ११८; योचू ५२; ५५; ६६; मं १,३,५, ६१; अता १२; योशि ५; ४०; शां १, ७, १४; १५;

३९-४३; -द्राः त्रिता ३, १; २; १५; वि २; वउ ६, २६; -द्राम् नाद ३१, ध्या ८१; योचू ५३; ५४;

६७, ६९; रार २, २४; रापू ४, ३१; योशि ५, ४२; वउ ६, १९; २१.

मुद्रा-दलक- -कम् आथ ३९४: १०.

मुद्रा-पुस्तक-वह्नि-नाग-विलस- द- -चाहु- -हुम् द १४.

मुद्रा-वन्ध-विशेष- -पेण वरा ५, ६८

मुद्रित- -सम् योचू ५७; योशि ५, ४१.

२मुद्र(>)द्रा^४- -द्रा वालि ४०१: १०; श्या १२.

मुधा^१ महा ३, ५०; ४, ९; योशि ४, २२; कुं ७; या २, ६.

मुनि^२- -नयः मना २, ७८९^३; ७९९^४;

अशि ५, १४; योचू ९२; त्रिवि ८, ६; रार २, १; २०; ३-५, १; अव्य ७; १संन्या २, ७०; गोपू २; गोठ २३; कृ १; वरा १, ७;

सु २, २, २४; गोच ६८: १६; तुल ७१: २३; नापू ५, २६; पा १, १०; २, १; त्रिशि ३८३: २;

हे ७; श्या १६; अद्वैमा १४; पित्र ६, ४; गी १४, १; -निः वृ ३, ५, १; ४, ४, २२; गी १, २९;

मै १, १; मेत्रे १, १; कै १, ७; शु ३, २०; तै ५, १; नाप ३, ३४; ४, ८; ३२; ५, ११; १४; १६; २३;

२४; ६, ३७; रार २, २; २१; ४८; ६३; ७०; ४, ९; पै ३, २; महा ४, २५; १संन्या २, ७८; अक्ष १, १; ३, २; ४, २८; ३५; ३८; ५, ४७; कुं २८; १आ ११; २४; र्ह ४८;

५२; यो २, २७; ३, ३३; गोठ ४-५; कृ २४; शा २४; सूता १, २९; शि ५, ४१; पित्र ६, १७;

सांका ७०; गी २, ५६; ५, ६; २८; १०, २६; -निना महा २, १६, अक्ष १५^५; शि ७, १४०;

-निभिः गी २, ३५; सी २६; द ५; १०; रार २, ४६; रापू ५, ७; सं ९; -निभ्यः तुल ७१: २२;

-निम् महा २, १४; गोठ ३; १६; -नीनाम् तै १, २; १२; नापू २, ७; १४; गी १०, ३७; -०ने वृजा ५, १२; ६, ६; शु १, १२; नाप ३, ८, ८, १९; शां १, ७, ३५; महा २, १५; ६९; ३, ८; ३१; ४१;

४, १; १४; १५; ११६; ५, ११४; १८३; ६, ५; अक्ष १, २१; ४, ८; ५, १२; ६०; अघ्या ७; यो २, ४; १०; १९; ३३; जाद १, ५; ८; १६^६; २५; ३, ९; ४, ९; ११; १३; २१; २५; ३२; ३५; ४०; ४१^७; ६३; ६, ३४; ४०; पं ३४; गोठ १६; वरा ४, २८; दत्ता १, ७^८; वि २८; पित्र २, ५; ४, ९; -नेः क २, १, १५; गोठ ६८^९;

योरा १९; गी २, ६९; ६, ३. मौन^{१०}- -नम् छां ८, ५, २; वृ ३, ५, १; तै १, १५; २०; २२; २, ३७; नाप ४, २४; मं २, २, ५; महा ३, ५७; १संन्या २, ९७; अक्षि २६; पाशु २, २१; वरा ३, ६-८; आपू ६; गी १०, ३८; १७, १६; -नात् सु २, २, २१;

-नेन सुवा १३; सार २५१: ८. मौन-सुद्रा^{११}- -द्रा द १५. मौन-वत् प्रवृ ३, ४, ४९. मौन-वत्- -वान् महा २, ५०.

मौनिन्- -नी नाप ५, ३७; रार ४, ५; महा २, २७; अक्ष ५, ९; शा ६; गी १२, १९.

मौनि-स्व- -स्वम् नाप ५, ३३. मुनि-गण- -गैः सु १, १, २. मुनि-गणा(ण-झा)वृत्- -सम् रार २, १४.

मुनि-चरण- -गम् वउ ४, ३९. मुनि-जन- -नैः नाप १. मुनि-त्रय- -यम् त्रि ७, १३५. मुनि-बुल्लं(म->)भा- -भाम् सु १, १, १५

१, १५

४, १; १४; १५; ११६; ५, ११४; १८३; ६, ५; अक्ष १, २१; ४, ८; ५, १२; ६०; अघ्या ७; यो २, ४; १०; १९; ३३; जाद १, ५; ८; १६^६; २५; ३, ९; ४, ९; ११; १३; २१; २५; ३२; ३५; ४०; ४१^७; ६३; ६, ३४; ४०; पं ३४; गोठ १६; वरा ४, २८; दत्ता १, ७^८; वि २८; पित्र २, ५; ४, ९; -नेः क २, १, १५; गोठ ६८^९;

योरा १९; गी २, ६९; ६, ३. मौन^{१०}- -नम् छां ८, ५, २; वृ ३, ५, १; तै १, १५; २०; २२; २, ३७; नाप ४, २४; मं २, २, ५; महा ३, ५७; १संन्या २, ९७; अक्षि २६; पाशु २, २१; वरा ३, ६-८; आपू ६; गी १०, ३८; १७, १६; -नात् सु २, २, २१;

-नेन सुवा १३; सार २५१: ८. मौन-सुद्रा^{११}- -द्रा द १५. मौन-वत् प्रवृ ३, ४, ४९. मौन-वत्- -वान् महा २, ५०.

मौनिन्- -नी नाप ५, ३७; रार ४, ५; महा २, २७; अक्ष ५, ९; शा ६; गी १२, १९.

मौनि-स्व- -स्वम् नाप ५, ३३. मुनि-गण- -गैः सु १, १, २. मुनि-गणा(ण-झा)वृत्- -सम् रार २, १४.

मुनि-चरण- -गम् वउ ४, ३९. मुनि-जन- -नैः नाप १. मुनि-त्रय- -यम् त्रि ७, १३५. मुनि-बुल्लं(म->)भा- -भाम् सु १, १, १५

१, १५

१, १५

१, १५

१, १५

१, १५

१, १५

१, १५

१, १५

१, १५

१, १५

१, १५

१, १५

a) व्यु. ? । b) =गोत्रप्रवर्तक-श्रुतिविशेष- । वैप १ यद्र. । c) =तदादलयोपनिषद्विशेष- । d) व्यु. ? =देवी-विशेष- । e) व्यु. ? =अश्व. । f) वैप १ यद्र. । g) तैश्या १०, ६२, १ । h) तैश्या १०, ६३, १ । i) ०नेः इति अघ्या. संटि. । j) 'मुखे' इति अघ्या. संटि. । k) 'मनः' इति अघ्या. संटि. । l) 'मुने' इति निसा., 'तथा' इति आन. । m) पा ५, १, १३१ । n) =मुद्राविशेष- ।

मुनि-पुगाव- ०० महा ४, ५९;
अक्ष १, ११; यो २, ४०; जाद
१, १७; ३, २; ४, ४-६; १५; २८;
३१; ४७; ५६; ६, ४३; ८, ७; वा
२, २४; -वः अक्ष ३, १६; -वाः
सार १, २.

मुनि-प्रोक- -कम् जाद ४, ३०.

मुनि-मावित- -तः सु २, २, ५५.

मुनि-वव सांस् ४, २७.

मुनि-वर- -रः जाद १, २.

मुनिवर-निकर- -रैः ६८.

मुनि-राव्- -राद् महा २-३, १.

मुनि-वादील- -०ल अक्ष ४, १.

मुनि-श्रेष्ठ- -०ष्ठ शु ३, १६; महा
३, २२; अक्ष १, ४४; रुजा २,
२; जाद ३, १०; ४, ३; ३७; ४४;
१०, ५; -घाः सु १, १, १५^०.

मुनि-सत्तम- -०म जाद ४, ११;
२६; वरा ५, १५; वि ६; -मैः
वि १, ७.

मुनि-सम- -मः वर ५, २१.

मुनी(नि-इ)न्द्र- -न्द्राः शि ७, १३८.

मुनीन्द्रा(द-आ)श्रेय-भाषित-
-तम् शि ७, १३४.

मुनी(नि-ई)श्वर- -०र शां १, ७,
२४; महा ६, ४७; ८२; रुह २९;
जाद १, ९; ६, १०; वरा २, ८;
३, २७; -०राः रार ४, १२.

√मुमुत्, मुमुधा-मुसुध-√मुच् द.

√मुम्पे, मुम्पे-√म् द.

मुर्-

मुरा(र-आ)ति- -रये नाड २, ११.

√मुर्धे √मुर्धे द.

मुर्ध-मुर्ध व ४३४ १५.

मुष्क^{१०}- -कौ वृ ६, ४, ३.

१मुष्टि^{१०}- -ष्टिः छा ७, ३, १; -ष्टिभिः
वे ४, २२.

२मुष्टि^{१०}-

मुष्टि-का^{१०}- -कः कृ १४.

मुसल^{१०}- -लैः शि ७, १०४.

मुसला(ल-आ)दि- -दिभिः गो २७.

मुसलो(ल-उ)ल्लखला(ल-आ)घ-
-घानि शि ६, २१०.

√मुह, > मोहि, मुहते युवा ९; त्रिना
२, १६; योशि ६, ६८; मुहति
महा ६, ७३^०; अक्ष ४, ३४; रुह
४६; गी २, १३; ८, २७; मुहन्ति
गी ५, १५.

मुमुहुः सार २३४: १५; अमुह
छाग २३: १३.

मोहयति रार २, ८८^०; हे ९;

मोहयति गी ३, २; मोहयेत्
रया २०.

अमुमुहव वृ २, ४, १३.

मुग्ध- -ग्धः नाप ३, ६२; ६८; वृ
६, ४; -ग्धाः वृ ६, १, ११; -ग्धे
ग्रम् ३, २, १०.

मुग्ध-चेतस- -तसः महा ३, ४५;
वा २, ११.

मुग्ध-तर-

मुग्धतर-मुनि-शब्द-

वाच्य- -च्यैः स्व ६१: २.

मुहय- -हते सु १, १, ४८.

मुहमान- -नः सुं ३, १, २; श्रेष्ठ, ७.

मूढ- -ढः वृ ९, ८; मैत्रे २, २२;

नि १०; ४४; ४५; १ योत ७७;

नाप ३, ४८; ४, २८; महा ५,

२७; अक्ष ४, ५; जाद १, २२;

वरा ४, ३; पित्र २, ७; गी ७,

२५; -ढम् क १, २, ६; भव १,

९; -ढस्य भावो २६; -ढाः क

१, २, ५; सुं १, २, ७; ८; मैत्रि ७,

९; १०; योशि १, २, ४; ४६; १३३;

१आ १७; सांका ३८; गी ७,
१५; ९, ११; १६, २०; -ढानाम्
योच् ४४; शां १, ७, ३७; योशि
६, ५५; -ढैः वृ ९, ४; तै ६, १६;
भव १, ४४.

मूढ-प्राह- -हेण गी १७, १९.

मूढ-ता- -ता ते ६, १५; -ताम्

अक्ष ४, १६.

मूढ-व- -वम् मै ३, ५; मैत्रि

३, ५.

मूढ-धी- -धीः नाद २७.

मूढ-योनि- -नियु गी १४, १५.

मूढ-वव १ अव ६.

मूढा(द-आ)त्मन्- -त्मा जाद

४, ५७.

मोह- -हः ई ७; ते ४, १९; ६,

१३; ३६; नाप ९, १२; महा ५,

४; ९; ६, १३; वरा ४, ४२; सार

२९२: ६; भव ३, १०; वर ५,

२९; गी ११, १; १४, १३; १८,

७३; -हम् प्र २, ३; वृ २, ४,

१३; ३, ५, १; ४, ५, १४; कौ

३, ३; ते १, १२; नाप ३, ७०;

दत्ता २; पित्र ६, १५; गी ४,

३५; १४, २२; -हस्य सांका ४८;

-हात् नाप ४, ४; श १; राव ५,

१५; १६; महा ५, ६७; योशि १,

६३; १०५ २, ६३; शि ७,

१०४; १०५; १११; व १७; गी

१६, १०; १८, ७; २५; ६०; -हेन

शि ७, ११२.

मोह-कम्बुक- -कम् शि ४, ६६.

मोह-कर- -०र अक्ष ५^१.

मोह-कलिल- -कम् गी २, ५२.

मोह-गुण-जाल-कलित-

-तम् निर्वा २९७: १२.

मोह-नाल- -लस्य मैत्रि ७, ८.

a) 'मनुजानाम्' इति अस्या. । b) °ष्ठ इति अस्या. संटि. । c) व्यु. १ = दैत्यविरोध- ।
d) = भीजमन्त्रविरोध- । e) वैपश् यद. । f) व्यु. १ = राक्षसविरोध- । g) विमु. १ इति अस्या. । h) संमो^{१०}
इति अस्या. ।

मोहजालक-
 मोहजालक-निर्धृत-
 -तः २अव ३३८:७.
 मोहजालक-संघात-
 -तम् त्रिधा २,१६५.
 मोहजाल-समावृत- -ताः
 गी १६,१६.
 मोह-पङ्क- -ङ्के महा ५,२१.
 मोह-भानु-ज-संक्रान्त-
 -स्तम् द १७.
 मोह-मदिरो(रा-उ)न्मत्त-
 -स्तम् मैत्रि ४,२.
 मोह-मन्दिर- -रम् मैत्रे २,१२.
 मोह-म(य>)यी- -यी मैत्रे
 २,१३.
 मोह-मल- -लम् वरा ५,६६.
 मोह-महिमन्- -न्ना पित्र ५,४.
 मोह-मात्र- -त्रम् पित्र ५,२.
 मोह-माया- -यायाम् महा ५,
 १६८.
 मोह-राग- -गी शारी ४.
 मोह-राहु-मुपिता(त-आ)म-
 तेजस्- -जसि वरा २,७४.
 मोह-रूप- -पम् त्रिधा २,८.
 मोह-श्लोम-मद- -दः(१दाः^b)
 १योत १२; योशि १,१०.
 मोह-वश- -शम् व ४६५:१९.
 मोह-संक्षय-कारि(व>)णी-
 -णी महा ४,११४.
 मोह-सागर- -रे योशि १,२१.
 मोह-स्तम्भ-बलीयस्- -यसा
 शि ७,१०३.
 मोहा(ह-आ)मक- -कम् वृत्
 ९,४.
 मोहा(ह-अ)न्त- -न्तम् वृ ४,
 ५,१४.

मोहा(ह-अ)न्धकार- -रे द१६.
 मोहा(ह-अ)र्णव- -यात् महा ५,
 ४१.
 मोहक^{१०}- -कः भा १८; १९.
 मोहन- -०न अक्ष ५; लां २१५:
 १७; -न्म गी १४,८; १८,३९;
 -नेन सार २५२:२०.
 मोहन-कोदण्ड-रूप-
 मोहनकोदण्डरूपि(व>)-
 णी- -णी आप ३९८:२०.
 मोहयत्- -यन् पा ३,४.
 मोहित- -तः पै १,३१; यो ३,
 २७; पित्र २,७; -तम् कृ १०;
 गी ७,१३; -ताः १योत ६; श
 २८; योशि १,४; पं: १८; स्व
 ६१:१३; सार २४२:२; गी ४,
 १६.
 मोहित-चेतस्- -तसः मैत्रे २,
 २५.
 १मोहि(व>)नी^{१०}- -नीम् गी ९,१२
 २मोहि(व>)नी^{१०}- -०नि व
 ४२७:२०; ४४९:८; -नी सार
 २२३:३; पी ४२२:८; -नीम् व
 ४३३:४; ७.
 मुहुस्(>>:)^१ अ २^१; १संन्या २,६७;
 अक ८५^१; मुहुः-मुहुः ते १,१७;
 २४; योशि १,१२; भ १,१; सु
 १,१५; २,२,४३; शि १,९; ७,
 ५५; भव २,३३; गी १८,७६.
 १मुहुर्त^{१०}- -तम् आबो ३१; शां १,
 ७,५१; वरा २,३२; -तोः वृ ३,
 ८,९; मना १, २५^b; शु २०;
 -तं त्रिधा २,१११.
 मुहुर्त-त्रय- -यम् भा ४१^१.
 मुहुर्त-द्वय-पर्यन्त- -न्तम् यो १,१३.
 मुहुर्त-मात्र- -त्रम् नाप २.

२मुहुर्त^१- -तोः कौ १, ३^१; -तन्त् कौ
 १, ४^१.
 मुह्यत्- , मुह्यमान- √सुहृ द.
 मूक^{१०}- -कः ध्या ९३,१; नाप ३, १;
 महा ४,१११; १संन्या २, ३; वृ
 १०; -काः वृत् ६,४; -कात् कौ
 ३, ३.
 मूक-वत् नाप ४, ३६; ५, २३.
 मूका(क-अ)न्ध-यधिरो(र-उ)प-
 (मा>)म- -मः महा ४, ८; अज
 ५, ११५.
 मूकी/कृ
 मूकी-करण- -गम् महा ४, २६.
 मूढ- √सुहृ द.
 मूढ^{१०}- -त्रम् छां ६, ५, २; इजा ३,
 २; ६; नाप ७; योशि ५, २६;
 १संन्या २, ७९; भ २, ३०.
 मूढ-क- -कम् ते ६, ७.
 मूढ-द्वार- -रेण मै ३, ४; मैत्रि ३,
 ४; मैत्रे १, ३.
 मूढ-पुरीष- -पम्^{१०} शे २, १३; गर्भ
 ५^१; निहृ २, ४; -पयोः ध्या ७३;
 नाप ३, ४६; योचू ४७; यो १,
 ५६; -याभ्याम् १संन्या २, ७२;
 व ४६५:९.
 मूढपुरीष-वत् १संन्या २, ९१.
 मूढ-दलेष्म-न-क-शुक्र-स्वेद- -दाः
 शारी १.
 मूढ-स्वाम- -मम् १संन्या २, ७६.
 मूढा(त्र-आ)दि- -दि सिशि ३८१:
 १२; -देः त्रिधा २, ८४.
 √मूत्रि
 मूत्रित- -तः नाप ५, २८.
 मूर्ख^१- -र्खः १योत ७७^०; द१४:२०;
 -र्खस्य महा ५, १६९; -र्खाः स्व
 ६१:१८.

a) °वः इति निसा. । b) पा.१ वनि. शोधः द. । c) =वायुभेदविशेष- । d) =विप. । e) नाप. =देवी-
 विशेष- वा सखीविशेष- वा । f) वैरयं यद. । g) तैश्चा १,२७,१ । h) तैश्चा १०,१,२ । i) °तैत्रितयम् इति तान्त्रि. ।
 j) अर्थः १ =नाप. । k) °तैः इति अथ्या. । l) मुहुर्तान्वि° इति समस्तः अथ्या. पा. । m) समाहारे-द्वस. ।
 n) °पयोः इति अथ्या. । o) 'अन्ध.' इति निसा. ।

मौहर्व- हर्वम् ते ४,२२.

मौहर्वो(हर्व-उ)नमेप-निमेप-
-पाम्याम् अक्ष ५,४२.

√मू(⟨सु)ळ्, >मूळि, मूळन्ते को
२, १२५^०; १३५^०.

अमूळयम् ए १,२.

मूळां- छां ष्या ८१; योचू ५३;
पै-२,४५.

मूळां-निद्रा-

मूळांनिद्रामय-

मूळांनिद्रामय-निधा-

सो(स-उ)च्छ्वासा(स-अ)-

भाव- च्वात् सं ३,१,४.

मूळित- -त्तः वरा २,७९.

मूर्त्,तां- -न्तः गौ २,२३; -न्तम्

प्र १,५; वृ २,३,१; २,४; मै ५,

३; मैत्रि ६,२; भव ३,२८;

-न्तस्य वृ २,३,२,४; -न्तां छां

७,१०,१^१.

मूर्त्-त्व- -त्वात् सांय १,५०;

-त्वे सांय ३,१३.

मूर्त्-विद्- -विद्ः गौ २, २३.

मूर्त्ता(त-अ)मूर्त्- -न्तं त्रिवि २,

१६^६.

मूर्त्तामूर्त्ता(त-अ)दि- -दि ते

२,३३.

मूर्त्ति- -न्तयः राष्ट्र २,३; वा १५;

गोड २६; दृ ३; गोच ६६; १४;

नापू १,८; गी १४,४; -न्तये द

१; द; -न्तिः प्र १,५; ए ३,२^१;

श्वे १,१३; मैत्रि ६,१४; योशि

६,३३; रुह १५; तारा ८३;

१७; -न्तिम् सूता १,१६; -न्तिषु

शि २,२५; -न्तीं सार २,२०: ५;

-न्तीनाम् गोड ६२.

मूर्त्ति-तारक- -कम् सं १,३,

१^१; ५^१; अता १०.

मूर्त्ति-प्रय- -यम् ते ३,५१; वि
२२.

मूर्त्ति-धर- -राणाम् शि २,२७.

मूर्त्ति-नैवेद्य-दीप- -पानाम् शि

३,७.

मूर्त्ति-ध्यान- -नम् शां १,१०.

मूर्त्ति-भूत(⟨)ता- -ताम् त्रिता

२,२९.

मूर्त्ति-मद्- -मत् अता १०५^१.

-मद्भिः त्रिवि ६,१६; २३; २५;

७,४९^१; सि ६, २४; ३५.

मूर्त्तिमती- -त्यः सार २,४२:

६; २६७: ५.

मूर्त्ति-रूप-

मूर्त्तिरूपि(⟨)णी- -णीम्

त्रिता २,३९.

मूर्त्ति-स्फोटं- -न्तः पो २०.

मूर्त्तां(ति-ई)धर- -राः शि २,

२५.

मूर्धन्^{१०}- -धन् दे ३५^१; -धन् मैत्रि ६,

२१; अना ३८; त्रिवि ११; म १,६;

जाद ६,३५; ७,१२; प्रा २,१६;

१३ ३१: १९; -र्थां कुं २,१,४;

छां १,८, ६^१; ८^१; १०, ९-११;

११,४-९; ५, १२, २^१; १८,२;

वृ २, १, २; ३, ६-१; ९,

२६^१; प्र २; कौ ४,२^१; प्रा ४,१;

गार ४०८: ६; व ४३७: १५^१;

-र्धानम् क २, ३, १६; छां ८, ६,

६; वृ १,३,२४; अशि ६, ६५^१;

कौ २,११^१; योशि ६,४; म १,

६५^१; जाद ४,४४; कुं २१; २२;

शि ५, ३३; -धन्तः वृ ४, ४, २;

-र्थां शि ६,१६२; -र्षि मैत्रि ६,

२३; प्र ३,१३; वृजा ४,२; ११;

७,८; अना २७^१; नाप ५, १;

त्रिवा २, ९^१; १९; योचू १०७;

११४; शां १,७, ५२^१; महा ६,

२४^१; योशि ५,२५; ४९; म २,

२; आच १०; वि ३०; शि ५,

२१; वज ६; १७; गी ८, १२;

-र्थां: काला १२.

मूर्ध-ज्योतिस्- -तिपि योसू ३,३३.

मूर्ध-पर्यन्त- -न्तम् शां १,४.

मूर्धा(र्ध-अ)श- -शा: जाद ८,५.

मूर्धा(र्ध-अ)अलि- -लिम् म २,२७.

मूर्धा(र्ध-अ)दि- -दीनि वृजा ४,१.

मूर्धा(र्ध-अ)न्त- -न्तम् १योत ९८;

वरा ५,५३.

√मूल

१मूल- -लम् द ११; -लम् छां

६, ८, ४^१; अशि ५, १८; ते १,

२७; त्रिवा २, १३१; १३२^१;

१३३^१; पत्र २; रुह १४; यो २,

३४; सु २, २, ३६; नार ८; का

९; वद् ३१७: ६; शि १, १२;

३७; वज ६, २६; सांय १, ६७;

-लाव वृ ३, २८, ४^१; ६; लानि

गी १५, ७; -ले छा ६, ११, १;

रार २, १२; राधा २, ४; १०; वपू

३, १; सांय १, ६७; योसू २, १३;

लेन वृजा ४, ८; वपं ३११: ३;

व ४२६: ४; सुसु ९; वज ६,

१२; २१; २३.

मूल-कन्द^{११}- -न्दम् यो १, ८२;

-न्दे सौ ३, १.

मूलकन्द(न्द-आख्या) >

ख्य- -ख्यम् योरा ६.

मूल-कारणा(ण-अ)व्यक्ता-

(क-आ)विर्भाव- -व्यः त्रिवि

२, १४.

a) दीर्घः (पा ८, २, ७८)। b) 'मृच्छन्ते' इति ध्यान, 'अक्षमृच्छन्ते' इति सांशा ४, १२; १३।
c) पा ६, २१; ८, २, ५०। d) 'तंम् इति निगा। e) यथा. वैप १ यद.। f) श्र १०, १२५, ७। g) 'मूर्ति' इति
ध्यान.। h) श्र ८, ४४, १६। i) सौ १०, २, २६। j) श्र ६, ५, १। k) 'मूर्धद्दारम्' इति ध्यान, शब्धा.। l) 'र्षः'
इति शब्धा. संदि.। m) वटमूल-निवासिन्-> -सिते इत्यपरयो मध्यमोऽसः द.।

मूल-चक्र-रन्ध्र- -न्ध्रे सी ३, १.
 मूल-खेद- -दात् अक्ष ४, ५४.
 मूल-तस(ः) ध्या ४०; सांस्
 ३, ४९; सांका ५४.
 मूल-त्रिक- -कम् त्रि ९.
 मूल-ख- -खात् योशि २, ८.
 मूल-खगू-दाह-निर्यास-प्रश-
 पुष्प-फलो(ल-उ)द्भूत-
 -तानाम् गह २४.
 मूल-प्रकृति- -ति: शां ३, १; पै
 १, ५; गौड ४४^१; नापू २, १६;
 ५, २७; सांका ३; -स्या त्रिवि
 ६, ३; -स्यै त्रिवि ७, ४८.
 मूलप्रकृति-जननी- -नीम्
 त्रिवि ६, १०.
 मूलप्रकृति-रूप-
 मूलप्रकृतिरूप-ख-
 -खात् सी २.
 मूलप्रकृति-संग(त>)ता-
 -ता विद्या १.
 मूलप्रकृति-संज्ञा-
 मूलप्रकृतिसंज्ञि(त>)-
 ता- -ता सी ८; राउ २, ४.
 मूल-फल- -लानि सि ४, ६१.
 मूल-बन्ध- -न्ध: ते १, १५; २७;
 ध्या ७५; १योत २६; योचू ४६;
 योशि १, १०३; यो १, ४१;
 ४२^१; ४६; ६४^१; वरा ५,
 ४५; -न्धम् योचू ४५; -न्धेन
 १योत १२३; योशि १, १०५.
 मूलबन्ध-मन्त्र- -न्त्रम् राउ
 ५, २४^१.
 मूल-बन्धन- -नात् ध्या ७४;
 योचू ४७.
 मूल-मन्त्र- -न्त्र: योशि २, ९;
 सार २७६; १३; -न्त्रम् योशि
 २, ४; यो १४; -न्त्रेण राउ ४,

९; रुजा १, २३.
 मूलमन्त्र-वस(ः) वृजा ४,
 १०.
 मूलमन्त्र-द्वय- -यम्(विने^१)
 नार ४.
 मूलमन्त्र-भाजू- -भाञि
 तारा ८३; १६.
 मूलमन्त्र-मालामन्त्र-कवच-
 दिग्बन्धनमन्त्र- -न्त्रा: त्रिवि ७,
 ४८.
 मूलमन्त्र-विभाग- - -गेन
 राउ २, ७१.
 मूल-मूल-लेपन- -नात् तुल
 ७०: ७.
 मूल-रोग- -ग: जाद ६, ४४.
 मूल-वैदिक-कल्प- -कल्पै: वउ
 ६, ६.
 मूल-शक्ति- -क्तिम् योशि ५, ३७.
 मूल-शुद्ध-मध्य- (स्थ>)-
 स्या^१ - -स्या अक्ष १, ४.
 मूल-स्थान- -ने योचू २०.
 मूल-स्वरूप-लिङ्ग-
 मूलस्वरूपलिङ्ग-ख- -खात्
 योशि २, ९.
 मूला(ल-अ)ग्नि- -ग्नि: योशि ५,
 ३०^१; -मौ वृउ ३, ९.
 मूला(ल-अ)दि-ब्रह्म-रन्ध्र-
 ग- -नाम् त्रिता १, ४०.
 मूला(ल-अ)धार^१- -रम् योशि
 १, १६८; ५, ५; यो ३, ९; जाद
 ४, ४३; वरा ५, ५०; -रस्य जाद
 ६, ४१; -रात् ध्या १०१; मं १,
 २, ६; अता ५; योशि २, ५;
 जाद ४, ३; मा ३७; चक्र ७;
 -रे जाद ७, ७; ११; ग ६^१; कालि
 ४०३: २.
 मूलाधार-ग(त>)ता- -ता

योशि ३, २.
 मूलाधार-त्रिकोण- (स्थ>)-
 स्या- -स्या योशि ५, १७.
 मूलाधार-नाभि-हृदय-ब्रह्म-
 रन्ध्र- -न्ध्रेषु तारा ८३: १६.
 मूलाधार-पर्यन्त- -न्तम् भा
 ३८.
 मूलाधार-समुद्भव- -खात्
 योशि २, ८^१.
 मूलाधारा(र-अ)दि-पद-
 चक्र- -कम् वरा ५, ५३.
 मूला(ल-अ)भाव- -खात् सांस्
 १, ६७.
 मूला(ल-अ)र्ध-च्छिन्न-वंशा-
 (श-आम>)भा- -भा योशि
 ५, १७.
 मूला(ल-अ)विद्या- -द्या त्रिवि
 १, ९.
 मूलाविद्या(शा-अ)ण्ड-
 -ण्डस्य त्रिवि ३, ७.
 मूलाविद्याण्ड-परिपा-
 लक- -कस्य त्रिवि ३, ७.
 मूलाविद्या-पुर- -रम् त्रिवि
 ६, १०.
 मूलाविद्या(धा-आ)विर्भाव-
 -व: त्रिवि २, १४.
 मूलाविद्यो(धा-उ)दय-स्थि-
 ति-लय- -या: त्रिवि २, १४.
 मूला(ला-आ)विर्भाव- -व:
 त्रिवि २, १४.
 मूलासुनियम^१- -मम्^१ वउ ६,
 १४.
 १ मूल- √मूल^१ द.
 २ मूल^१ - -लाय व ४३८: ६.
 ३ मूल^१ -
 मूल-क^१ - -कम् सि ६, ८३.
 ४ मूल(ल>)ला^१ - -लाम् सुमु ९.

a) °ति इति अच्चा. यनि. शोच: द. (तु. निसा.) । °तिरु° इति आन. । b) 'सुद्विपूर्वम् अयम्' इति अच्चा. । c) पा. १ यनि. शोच: द. । d) =ऐकार-बीजाक्षर- । e) °स्थित: इति निसा. । f) °धारत् इति अच्चा. । g) अवयवविभाग: ? । h) वा. क्रिवि. द. । i) व्यु: ? =नक्षत्रविशेष- । j) व्यु: ? =शाकविशेष- । k) व्यु: ? =देवीविशेष- ।

√मृप (वधा.)

मृपक-

मृषिका-काणाम् गह २४.

मृपक-ध्वज-जम् प ११.

मृपानि-

मृपा-स्थ-दुत-हेमा-

(म-आभा>)भ-भम् महा

५, १५५.

√मृ, >मादि, मुमूर्ध, प्रियते क १, २,

१८; छां ६, ११, ३३; वृ १, ५, २१;

३, २, ११; १२; ६, ३, १३; गौ ४,

६८; ६९; ७०; कौ २, १२; १३;

मृप १, १५; सुवा ९; राव ३,

३; महा ३, ४; १२०; ५, १६५;

योशि ६, ३७; १आ १; २आ

१; ३; या २, १७; गोच ६८; ३;

भव १, २५; २, ३७; गौ २, २०;

त्रियन्ते कौ २, १३; १योत ६०;

त्रिये अज ५, ९१; त्रियस्व छां

५, १०, ८; त्रियेत २२त्या १५:

१; त्रियेत् अना ३९.

मरिष्यति मृ १३.

मारयति नृपू २, १६; त्रिता ३,

२१; २५; मारय महा ४, ९४;

मारय-मारय दत्ता २; लां २१४:

१७; २१५: १८; व ४४९: ९;

४५६: १२; अमारयत् वृजा ६,

३; मारयेत् वृपू २, ५.

मर-र-; -रम् ऐ १, २.

मरण-णम् क १, १, २५; २, २, ६;

छां ३, १७, ५; मना २, ८०५^१; ते

५, २४; प्या ८०; १योत ९७;

नाप ३, ६१; ५, १; योच ५३;

९०; राष्ट्र १, २; महा २, ५५; ३,

५३; योशि १, ४५; ४६; ५८;

वरा ३, ५; अज ५, २४; राधा

३, ८; भव १, १४; पित्र १, १४;

-गात् प्रा ४, ११^०; गो २, ३४;

-ये गौ ३, ९; सु १, १, २०.

मरण-जन्मन्-न्मनी महा २,

५६; अज १, ४०.

मरण-भभव-प्रयाश-हेतु-

-तु: वरा ३, १२.

मरणा(ण-श्च)वस्था- -स्था पै

२, ४७.

मरणो(ण-उ)स्त्व-युद्ध- -वेपु

महा ४, ३३.

मर्य- -र्य: क १, १, ६; २८; २,

१३; २, २, ५; ३, १४; १५; वृ १,

४, ६; ३, ९, २८, ४; ६; ४, ४, ७;

ते ६, ८०; महा ४, ८१; वरा २,

१९; शा २५; ह्यु २३; -र्यम्

छां ७, २४, १; ८, ३, ५; १२, १;

वृ २, ३, १; २; ४; गौ ३, २; ४;

७; सुवा ५; च २१: १९५^०; व

४३७: ६५^०; -र्यस्य क १, १,

२६; वृ २, ३, २; ४; अशि ३,

५५^०; वट ३१५: ४५^०; सिधि

३८१: १; -र्या: छां ४, ३, ६;

पाशु १, २८; -र्यात् वृ ३, ९, ४;

-र्यान् मना २, १२, २५^०; शौ

५३: १७५^०; ५४: १; -र्यानाम्

वृ ६, २, २५^०; का ३; -र्याय

मना २, ५७५^०; -र्ये गौ ४, २१^०;

मैत्रि ४, २; -र्येषु गौ १०, ३.

मर्य-ना- -ताम् गौ ३, १९;

२०; २२; ४, ६; ८.

मर्य-भोग-

मर्यभोग-वत्- -वान् योशि

५, ५३.

मर्य-रूप- -येण राष्ट्र १, १.

मर्य-लोक- -कम् गौ ९, २१;

-के क १, १, २५.

मार-

मार-द- -दम् पा ५, ४.

मार-हारि(त>)णी- -०णि हंषो

९.

१मारण-

मारण-भोहन-वशीकरण-स्व-

म्भन-जृम्भणा(ण-श्चा)कर्मणो-

(ण-उ)घाटन-मिलन-विद्वेषण-

युद्ध-तर्क-मर्मन्- -मणि लां

२१६: ४.

२मारण- -०ण लां २१५: १७.

मुमूर्ध- -यो: राव ३, ८.

सुत, ता- -ता: वृ ३, २, ११; गर्भ

४^०; वृ १, १७^०; ते ६, ७४; ८०;

पै १, ३३; २, ३४; ४, १३; योशि

१, ४५; ४६; अज ५, १५^०; प्रा

४, १; वरा २, ४०; ७५; निह १,

१५^०; गोच ६७: १९^०; मार

२५९: ८; शि १, २९; ६, २९६;

७, १२०; -तम् मैत्रे २, ४; वृजा

६, १; योच २६; अज ४, १२;

भट, ३०; च २१: १९५^०; शि ७,

८०; ८२; शु ३४; गौ २, २६;

-तस्य वृ ३, २, १३; योशि १,

४५; ६, ४२; पिं २; सि ६, १६६;

गौ २, २७; -ता वृ ४, ४, ७; मैत्रे

२, १३; -त्या: राव ३, ४; शि ६,

१८८; १९१; -तान् (तत्^०) पा

२, २; -ते म ३७९: ९.

सृत-कर्ष- -र्यम् इ १५: १८.

सृत-नाश्र- -प्रस्य त्रिमा २, ८७.

सृत-जन्तु- -न्तो वृजा ६, १.

सृत-नु(स्व>)स्या- -स्या पै २,

४५.

सृत-वत् गद ५२.

a) धा. अर्थ: ?। b) तैब्रा १०, ६४, १। c) का. ३ पा. कोष्य: द.। d) धा. वेपइ गद.। e) 'मर्यस्य' इति ऋ ८, ४८, ३। f) ऋ १, ३५, २। g) ऋ ८, ४८, ३। h) ऋ ४, ५८, ३। i) ऋ १०, ८८, १५। j) तैमा ३, १०, ८, २। k) 'ते' इति निता. यनि. क्षोघ: द (द्र. धा. ग., मा. उ.)। l) = कामप्रद- (द्र. पा. टो.)। m) भावे इत्। n) कर्तरि क्तु। o) 'सृतस्य' इति शाल., अश्या.। p) विशिष्ट इह ऋ. (८, ४८, ३) पाठे.। q) पा. ? यनि. कोष्य: द.।

मृत-मृतक-काश् मैत्रि ६, ९.
 मृतमृतक-ज-जम् मैत्रे २, ८
 मृति-तये महा ३, ४^१; भव १,
 २५; -ति: वृजा २, १४; ते ५,
 २४; ६, १६; ३४; अक्ष १, ३९;
 म २, २८; वरा १, ९; -तिम्
 योशि १, १६१; -ते: पै ३, २;
 यो ३, ३३; -ती सु १, १, १९^७.
 मृत्यु-मृत्युवे क १, १, ४९^७; मना
 २, ५८^७; व ४३७: ५; ४६४:
 २०; -यु^१ वृ १, ९^७; -यु: क १,
 १, १५; २५; २, ३, ३; प्र ६,
 ६; तै २, ८, १; ऐ १, ४; २, ४;
 छां १, ४, ३; ८, ४, १; वृ १, २, १;
 ४; ७^१; ३, ९^१; २८^१; ४, ११; ५,
 २१^१; २३; २, १, १२^१; ३, २,
 १०^१; ९, १४; श्वे २, १२; मना
 २, १५९^१; ४५९^१; ७५९^१; अशि
 २, १८; वृ २, १४९^१; १६९^१; ४,
 १५, २४; ५, २०; कौ ४, १३; वृजा
 ८, ६; सुवा ५; ७^१; ११; १३^१;
 १४^१; १५; मन्त्रि १२^१; ते ५,
 २०; १योत १२; ८७; ९१;
 १०३; त्रिमा २, १२७; राज ४,
 १५; महा ४, २२; योशि १, १०;
 ५, ४२; अय्य २; आया १^१;
 १४; कुं ९^१; पाशु २, ४०; क १,
 म २, २५; २९; गोपू २; ३; इ
 ११; १८; वट ३१४; ११;
 २शिसं ३४९^१; शि ७, ११५^१; व
 ४५६; १५; यु २२; भव १, ३८;
 ४०; वड ५, २८; गी २, २७; ९,
 १९, १०, ३४; -न्युना छां ८, १२,

१; वृ १, २, १; ३, १, १; ९, २८,
 ४; ६; पै ४, १३; महा ५, १४३;
 भव १, १६; -न्युम् ११; १४;
 क २, १, १०; ११; छां २, २२,
 ४; ७, २६, २; वृ १, २, ७; ३,
 १०^१-१५^१; १६^१; ५, २^१; ३, ५, १;
 ४, ४, १९; श्वे ३, ८९^०; ६, १५९^०;
 मैत्रि ७, ९; ११; कै १, ९; हं ५;
 मना २, ४८९^०; ५०९^०; ७९९^०;
 वृ १, ११^०; २, १^०; १६; ३, २;
 ५, १३; वृ ८, ५; वृजा ८, ३; सुवा
 १; ७; ९^०; ११; १५; नाप ३, ६०;
 आयो १; त्रिवि २, १७; राज १, २;
 योशि १, १०९; अय्य २; अध्या
 १; सावि १०; गोड २६; इ १४:
 १६; सता १९; मृ ११; हे ८;
 विवा १; व ४६६; ४; भव ३,
 १९^०; वपू २, २; गी १३, २५;
 -०त्यो क १, १, १०; १३; २२;
 २९; मना २, ४६९^०; ५१९^०;
 ५७९^०; व ४३७: ५; ४६४: २०;
 -स्यो: क २, १, २; १०; ११; छां
 १, ४, २; २, २२, ३; ५; वृ १, ३,
 २८^०; ३, १, ३; २, १०; ४, ३, ७;
 ४, १९; मै ४, २; मैत्रि ४, २; मना
 १, १४९^०; २, ४७९^०; ५६९^०; वृ
 २, १; वृ ८, ५; सुवा १३३;
 आयो १; अक्ष ३३; अय्य २;
 स १९; अक्षि १९^०; त्रिमा १, ८९^०;
 इ ११; ८; चा ११; गोच ६७:
 २; वपं ३१२; १८; २शिसं
 २४९^०; ९^० व ४३०: २; ४३८:
 १७, ४३९; ४; १४; ४४०: १;

११; २१; ४४१: ९; १९; ४४२:
 ७; १८; ४४३: ५; १५; ४४४:
 ९; १९; ४४५: ६; १७; ४४६:
 ४; १६; ४४७: ३; १४; ४४८:
 २; १३; ४४९: १; ११; १८;
 ४५०: २; ९; १६; २३; ४५१:
 ९; १६; २३; ४५२: ८; १६;
 ४५३: १; ६; १२; १८; ४५४:
 १; ७; १५; २१; ४५५: ५; ४६६:
 ५; -स्यो सुवा ५.
 मृत्यु-काल-ल: भव १, ३९.
 मृत्यु-चक्र-मत-तस्य योशि
 १, ८३^१.
 मृत्यु-जन्म-निवर्ह(छ>)गी-
 -गीम् तुल ७०: ५.
 मृत्यु-जय^१-००य अक्ष ५;
 -यम् त्रिमा ३, ४; ७; १६; -याय
 वृजा २, १४; -येन वृजा ६, १.
 मृत्युजय-स्वरूप-
 मृत्युजयस्वरूपि(न>)-
 गी-००गि अक्ष १५.
 मृत्यु-तारक-कम् वृ ५, १०;
 वृजा ६, १२; रजा ३, १.
 मृत्यु-नाशन-क-००र अक्ष ५.
 मृत्यु-नाशि(न>)गी- नीम्
 तुल ७०: ६.
 मृत्यु-पाश-नाम् ते ३, ६२;
 -नान् क १, १, १८; श्वे ४, १५;
 अशि ५, ८; यु ५८.
 मृत्यु-प्रोक्त-कम् क १,
 ३, १६; -क्ताम् क २, ३, १८.
 मृत्यु-भय-यम् ध्या ८४; योचू
 ५८; योशि १, ८३; व ४५९: ७.

a) 'त्रियते' इति निशा. यनि. शोष: द्र. (तु. अञ्चया.) । b) 'तः इति निशा. । c) चप्रा वैप १ यद्र. ।
 d) तैत्रा ३, ११, ८, १ । e) मा ३९, १३^१ । f) 'मृत्युमृत्यु->न्युम्' इत्यस्याऽऽचांशः । g) 'ल्युम्' इति
 निशा. । h) तैत्रा १०, १४, १ । i) तैत्रा ३, ७, १४, ४ । j) तैत्रा १०, ७५ । k) तैत्रा ८, ८, १ । l) श्र १०,
 १२१, २ । 'मृत्युमृत्युः' इति निशा. । m) 'मन्युः' इति अञ्चया. । n) मा ३१, १८ । o) शौ ७, ५५, १ । p) तैत्रा १,
 २, १, १५ । q) तैत्रा १०, ६३, १ । r) 'मृत्युमृत्यु->न्युम्' इत्यस्योत्तरांशः । s) मा ४०, १४ । t) श्र १०,
 १८, १ । u) तैत्रा ३, १५, १ । v) तैत्रा ३, १०, ८, २ । w) तैत्रा १०, १, १४ । x) तैत्रा ३, ७, ७, २ । y) श्र ७,
 ५९, १२ । z) मायात्रा १४, ४, १, ३२ । z') 'न्युवचक्रम्' इति अञ्चया. । b') पू. द्वि. अलुक् द्र. ।

स्यु-म(रु>)ती-स्यः प्र५,६.
स्यु-मथन- -न अक्ष ५.
स्यु-मातङ्ग-केसरिन्- -री ध्या
७७; १योत ११९; योचू ४८;
वरा ५,७.

स्यु-मुख- -खात् क १,१,११;
३,१५; नाप ९,१; हे ९.

स्यु-सुखु- -सु० वृत् ५, ३;
-सुः वृत्. ४,४; ५,१; २; -स्युम्
त्रिवि ७,४०; ३५२,६; १६०;
११; वृत् ६,१; वपं ३१२: ११;
व ४५७: १३. -

स्युस्यु-ख- -खात् वृत्
७,९.

स्यु-रूप-

स्युरुपि(न>)णी- -गी
रापू ४,५९६.
स्यु-लाङ्गूल- -लम् सृ
१; ५.

स्युलाङ्गूल-मन्त्र-
-न्प्रत्य सृ १.

स्युलाङ्गूला(ल-श्राद्धा>)
रूप- -रूपस्य सृ ११.

स्यु-वत् वत् ३,३,५१.

स्यु-श्याधि-जरा-प्रस्त- -स्तः
यो २,२.

स्यु-संसार-वर्त्मन्- -वर्त्मनि
गी ९,३.

स्यु-संसार-सागर- -रात् गी
१२,७.

स्यु(सु-उ)पस्थान- -जे सृ २.
सुखा करु ४३; वरा ४,३५.
त्रियमाण- -याः वृ ४,३८.

सुकण्डु-
मार्कण्डेय- -यम् द १.

सुकण्डु-ज- -जम् द १७.

√सुग(१धा.)>सुगि, सुगयते नाप
५,११; १संन्या २,७८.

सुगयते श १६.
मर्ग-
मर्ग- -र्गः पृहं १; तुभः १; निर्वा
२९७: १३; शां १, ७, १७;
योशि १,५३; सार २२०: १७;
२९२: १५; -गैम् अना २६;
व्रवि ५२; १योत ५; नाप ४,
१८; वे २,३९; योशि १,२,५,
३७; यो २,४८; वरा ५,४३;
गोत्र २; ४; सार २३५: १५;
२९२: १८; -गैस्य मैत्रि ६,
१०; -र्गाः सार २६६: ४; -गौव
सार २२०: १७; -गौभ्याम् सु
२,२,५; भव १, ४७; -गौ वृजा
४,८; वरा ५,३७; सार २३१:
१०; २३४: २३; २६६: ५;
२९२ २१४; कि ६,२१७; -गौण
कुवा ४; ध्या ६५; त्रिवि ८,६;
१८; १भव २३; शां १,७, ३७;
जाट २, ११; सौ २, ३; सार
२२७: १४; २९१: ३.

मार्ग- (रु>)जा- -शा सार
२६३: ४.

मार्ग-त्रय-निरोधक- -कः
वरा ५,४३.

मार्ग-विद्- -वित् व्रवि ५५.
मार्ग-शोभा- -भाम् शि ६,
१५३.

सुग- -गः वृपू २, १३१; तैद, १३;
नापू ४, १०१; -गम् वृपू २,
८१; -गाः सार २७८: ११;
भव १,४३; -गाम् ११मना २,

१२,१; २,४०; १वृ ४४२: १९;
४४८: ३; ४५२: ९; वपू १, ११;
गी १०, ३०; -गान् वृत् ३, २३.

सुगी- -ग्याः वपू १३^म.

सुग-वृष्णा-
सुगवृष्णा-जल- -लम् ते ६,
७४.

सुगवृष्णा-मप- -यानि
१योत ३१.

सुगवृष्णा(व्या-श्र)भु-
बुद्धय(दि-शादि-नान्वि-
मात्रात्र-श्रा)मक- -कः मह
५,४१.

सुगवृष्णा-सरस्- -रः सु
महा ३,५६.

सुग-द्विज- -जाः मैत्रि ६, १८०.

सुग-पक्षिन्- -क्षिणः महा ३, १३.

सुग-मद-कर्ष-रस- -सम् सार
२२८: २०.

सुग-मुख- -लम् अव्य २
सुग-रूप-

सुगरूप-त्व- -खात् अव्य २.
सुग-शीर्ष- -र्षो व ४३८: २.

मार्गशीर्ष- -र्षः गी १०;
३५, -र्षे रा ४२४: ९.

सुग-हस्त- -स्तम् म १, १.
सुग(ग-श्रा)रु- -रुः व ४४१: ३

सुगे(ग-श्र)न्- -न्द्-गी १०, ३०.
सुय- -यः नाप ८, २.

√सुज्>मार्जि, मार्जयति सार २८८:
३; मार्जयति महा ४, १.

मार्जन- -नम् भ २, २; ११; शा
१२; तल ७१: १८.

मार्जनीय- -यम् अक्ष ४, ५५.
सुष्ट- -ष्टम् महा २, ५४.

a) उप. कर्त्री वृत्। b) मन्त्रान्तगतस्य 'स्युस्यु->स्युम्' इत्यस्याऽपि भक्तिः संकेतः। c) मन्त्रान्तर्गतस्य पदस्य संकेतः द। d) =तकार-बीजाक्षर-। e) =तदाद्योपनिषद्- वा तन्मन्त्र- वा। f) वृत्! =गोत्र-प्रवर्तक-श्रवणविशेष-। g) वा ४, १, १२३; ६, ४, १४७। h) वा. अर्थः =माप। i) वरा. वैप १ यद.। j) शृ १, १५४, २। k) शृ २, ३३, ११। l) शृ ९, ५६, ६। m) 'सुग्यः' इति अक्षा.। n) =नारीचिका-। o) 'गाः द्वि' इति पाठ.। p) =नक्षत्रविशेष-। q) =मासविशेष-।

मृष्ट-तन- -मम् गोट ३.

मृष्ट-वत् अक्ष ५, ३.

√मृद्, >मृडि, मृड> वा वृष्ट २,
८१^b; नी १, ७१^०.

मृडयति सूता १, १४१^०; १^०मृडय
व ४४०: २२; ४४६: ५; ४५१:
१; ४५४: ८; मृडय-मृडय तां
२१५: २१; मृडयत-मृडयत
अक्ष १३.

मृड'- -डाय श २३.

√मृण्

मृणत्- -णत् व ४६०: १७१^०.

मृणाल^{ch}-

मृणाल-तन्तु-सु(क्ष्म)>क्षमा-
-क्षमा मं १, २, ६.

मृणाल-सूत्र-

मृणालसूत्र-वत् अता ५.

मृत-, मृति-, १मृत्यु- √मृष्ट्र.

२मृत्यु'- -मृत्यु; ल्याः वृ २, ६, ३; ४,
६, ३.

मृत्या √मृष्ट्र.

√मृद्, >मर्दि, मर्दयेत् वृजा ३, १; वा
८; ऊ ६३: १०; गोच ६६: ७;
शि ७, ५३.

मर्दन- -नम् ध्या ७१; १योत ५१;
योच ४१.

मृद्'- मृत् ससा १, ३३; भव ३, २१;

मृदः गोच ६७: १६; मृदम् गार
३; शि ७, ८८; मृदा भव ३,
२०; मृदि योशि ४, १३; १४.

मृज्-जल- -लाभ्याम् मैत्रे २, ९;

शां १, १; जाद १, २०; -लेन
सार २३३: २३.

मृण्-मय- -यः योशि ४, २१;

-यम् छां ६, १, ४; पत्र २; पं २९;

-यानि कर १; कथु २, ३; -ये-

वृजा ३, ६; भ १, ४.

मृत्-काष्ठ-वंशसण्ड- -ण्डानि
शि ६, ५५.

मृत्-कुम्भ-पी(ठक)>ठिका¹-

-काम् शि ६, ५९.

मृत्-ति(क)>का¹- -कया सार

२२७: ६; -का छां ६, १, ४; योशि

४, १९; पत्र २; सार २२७: ५;

२४३: ३; -कानाम् भव ३, १९;

-काम् सार २२६: २१; २५५:

९; -कायाः पं २९; सार २२६:

२२; -०केमना १, ८¹; १^०; १^०मृ;

छु २०३: ७१^०; य ७१^०.

मृत्-पच- -चेन मै २, ९^१; मैत्रि

२, ६^१; ३, ३^१.

मृत्-पात्र- -त्रम् आरु ४.

मृत्-पिण्ड- -ण्डे स्व ६०: २;

-ण्डेन छां ६, १, ४.

मृत्-रत्न>स्ता¹- -स्तया आपें

७: ७; -स्ताम् का ४.

मृद्-अभिन्न- -न्नम् पं २९.

मृद्-दारु-ज- -जम् शि ४, २०.

मृद्-दार्ब(ह-अ)लावु(ः?)फल-

पर्ण-पात्र- -त्रम् शा १९^१.

मृद्-भस्म-गोमय-जल¹- -लम्

शि ७, २६.

मृद्-भाण्ड- -ण्डस्य नाद २५.

मृद्-वत्

मृद्वत्-सं(स्था)>स्थ- -स्थम्

मैत्रि ६, २७.

मृद्-वस्त्र-तद-ज- -जानि शि

६, ५०.

मृद्-विकार- -रेषु ससा १, ३३.

मृद्-लोह-विस्फुलिङ्गा(ह-आ)-

घ- -घैः गौ ३, १५.

मृदित-

मृदित-कषाय- -याय छां ७,

२६, २.

मृदित-तमो-विकार- -रस्य मं

२, ३, ४.

मृदु'- -दु छां २, २२, १; -दूनि महा

४, ३०.

मार्दव- -वम् योशि १, १४७;

गौ १६, २.

मृदु-कपोल-वाण्या(णी-आ)-

त्मन्- -रत्ने सार २५१: २०.

मृदु-कर्मन्- -मोणि अक्षि ६.

मृदु-ता- -ता महा ६, ३०.

मृदु-प्र(भा)>न- -भाः मैत्रि

६, ३०.

मृदु-भाषिन्-

मृदुभाषि-ता- -ता महा ६,

३०^१.

मृदु-अप्यम-मन्त्र¹- -न्त्रेषु वरा

५, १०^२.

मृदु-अध्या(ध्व-अ)धिसात्र-

-त्राः योत् २, ३४.

मृदुमध्याधिसात्र-त्व-

-त्वात् योत् १, २२.

मृदु-रोमा(म-अ)ञ्चित>

ता- -ताम् शि ६, २०२.

मृदु-ल¹- -लम् योशि १, ८१;

वउ ६, ३५.

a) 'इष्टतनः' इति आन. । b) ष्ट २, ३, ११ । c) 'मृडय' इति तैसं ४, ५, १, १ । d) मा १६, ७ ।

e) ष्ट १, २५, १९ । f) कर्तारि कः प्र. (पा ३, १, १३५) । g) ष्ट १०, ८४, ३ । h) व्यु. ? = विस. । i) व्यु. ? = अक्षि-

विशेष- । j) वैपरी यद. । k) पा ५, ४, ३९ । l) तैशा १०, १, ८^१ । m) तैशा १०, १, ९^१ । n) तैशा १०, १, ८ ।

o) 'मृदे च न' इति निसा. यनि. शोषः द. [वृ. आन. (मैत्रि २, ६)] । p) 'मृद्वे च न' इति सात. इति पा. ? यनि. शोषः द. (वृ. आन.) । q) 'मृद्वे च न' इति सात. इति पा. ? यनि. शोषः द. (वृ. आन., सात.) ।

r) पा ५, ४, ४० । s) पा. ? यनि. शोषः द. । t) 'लक्ष्मणपर्वणो' इति निसा. संदि. । u) समाहारे द्वस. ।

v) 'पता इति अय्या. । w) = लयादियोगविशेष- । x) मध्यादिम् इति अय्या. । y) पा ५, २, ९७ ।

मृदु-सोहित-ता: मैत्रि ६, ३०.
मृदु-वर्म-प्रकल्पित->ता-ते
शि ७, ४६.

मृदु-श्लक्ष्ण-सु-तुलिका-
-कायाम् राप् ५, २
मृदा(दु-आ)सन-नेषु शां १, ५.

मृदङ्ग-
मृदङ्ग-नाद-द: हं १६.

√मृध्
मृध्- मृध: मना १, १९^०; ११९^०;
व ४६०: १६९^०; ४६३: २३९^०.
मृषा^० शौ ४, ३३; रा २३; शौ ४, १८;
३०; महा ४, ६३; यो १, ८०^०;
पं ३२.

मृषा-मात्र-आ: भय्या १९.

मृष्ट-√मृञ् द.
मेखल(ल>)ता^०-काम् आरु ५९^०.
मेखला-त्रय-भूयित-तम् शि ४, ८.
मेखला(ला-आ)दि-विभूयित->
ता-ता शि ४, १३.

मेघ-√मिह द.
मेघ^०-इम् घ्या ४८; योक् १२;
-दस्य त्रिना २, ६६; -दात् घ्या
४७; ५० त्रिना २, ४९; योक्
१०; १४; शां १, ३, ७; १, ४;
जाद ३, ९; ४, २; वरा ५, २०.

मेघ-देश-शात् वरा ५, २०.
मेघा(दु-अ)न्त-न्तम् शां १, ४.
मेघान्ता(न्त-अ)वधि-धि:
त्रिना २, ७३.

मेघस्-√मिद् द.
१मेदिन्-दी व ४६१: २९^०.

२मेदि(न्>)नी^०-नी मना २, २८^०;
-नीम् रा २, ८८.

मेघ^०-
मेघा(ध-अ)तिथि^०-धिम् वा १.
मेघ्य-प्यम् वृ १, २, ७^०; -प्यस्य
वृ १, १, १^०.
मेघ्या(प्य-अ)मेघ्य-प्यौ १ अव
६^०.
मेघ्यामेघ्य-रस-सम् शि
५, ४२.

मिधवा^० मना २, ४०^०.
१मेघा^०-धया क १, २, २३; सुं ३,
२, ३; तै १, ४, १^०; वृ १, ५, १;
२^०; मना २, ३१^०; ७९^०; सुवा
९; नाप ४, ३८^०; ९^०; -घा ऐ ५, २;
मना २, ४१^०; ४२^०; ४३^०;
७९^०; गी १०, ३४^०; -घाम् मना
१, ४९^०; २, ४२^०; ४४^०; दद;
१संन्या २, ६; ह ७; ८; कामे १६६.

मेघा-काम-म: सूता १, २१.
मेघा-दक्षिणा-सूति-मन्त्र-
-न्त्रस्य द १^०.
मेघा-दीक्षा-क्षाम् कामे ११.
मेघादीक्षा-तस(>) कामे ११.
मेघा-दीक्षित-रूप-
मेघादीक्षितरूपि(न्>)णी-
-णीम् कामे २.

मेघा-वत्-वान् ग १८.
मेघा-धिन्-धिनम् वा ३४^०.
सु १, ५२^०; वी क १, ३, १६;
छां ६, १४, २; वृ ४, ३, ३३; मवि
१८; अना १; १योत ३५; १०६;

१संन्या २; १०२; त्रिता ५, १८;
इ १०:८; १९:१९; अवि १८;
गी १८, १०.

मेघा-स्पर्श-मणि-काली^०-लीम्
कामे ३.

२मेघा^०-घा सर १, ४; ३, ५; -०धे
मना २, ४१^०.

३मेघा^०-धया राप् ४, ५९; -घा
राप् ४, ५८.

मेघातिथि-मेघ-द.
मेय-√मा(माने) द.

मेरु^०-रु: ते ६, ८२; ८५; महा ४,
६५; गोउ ५२; सु ९; पित्र १, १०;
गी १०, २३; -रुम् ते ६, ८६^०;
-रो: महा २, ७५; अक्ष १, ४९; गोउ
१९; भव २, ३३; -नी महा २, १४.
मेरु-चालन-नात् वरा ५, ६४.
मेरु-प्रासाद-दस्य शि ६, १०६;
१०६.

मेरु-मध्य-गत-ता: वरा ५, ६४.
मेरु-शृङ्ग-तटो(ट-उ)हासि-गङ्गा-
जल-रयो(य-उ)प(म>)मा-
-मा महा ३, ४१^०; वा २, ७.
मेरु-सर्प-प-पम् महा ३, ३८.

मेलन-√मिल् द.
मिवाह^० घृ ३.
१मेप^०-प: वृ १, ४, ४; -पम् शि
६, ३०८.

२मेप^०-
मेपा(य-आ)दि-दय: सूता ५,
१२.

मेप-भूय^०-
मेपभूयो(य-उ)पगत-त: वा १.

a) व्यु: १=वाचविशेष-। b) वैप १ यद.। c) अ ८, ६१, १३। d) अ ३, ४०, २। e) अ १०, ८४, २। f) =अथव.।
वैप १ यद.। g) अ १०, ८४, ६। h) व्यु: १=वृथिवी-। i) तैआ १०, २१, १। j) ०ध्वे इति अञ्वा.। k) तु: सस्थ. डि.
महान्-> -ख। l) तैआ १०, ५०, १। m) =वृद्धिविशेष-। वैप १ यद.। n) तैआ १०, ४९, १। (तु. सस्थ. डि. महान्->
-ह)। o) तैआ १०, ६३, १। p) तैआ ७, ४, १। q) तैआ १०, ३९, १। r) तैआ १०, ४०, १। s) तैआ १०, ४२, १।
t) अर्थे:।। m) अ १, १८, ६। v) तैसं ३, ३, १, २। w) श्रीमे^० इति अञ्वा.। x) वाध २, ९। y) दस. > पस. > मलो.
कस.। z) व्यु: १=सरस्वती-। a') व्यु: १=धकार-बीजाक्षर-। b') व्यु: १=पवतविशेष-। c') मिः^० इति अञ्वा.।
d') =ज्ञाचलो^० इति निशा. यनि. सोध: द. (तु. अञ्वा., नाउ.)। e') पा: १ 'मा, इव, आह' इत्येवं शोध: द.। f') व्यु: १
=२अवि-। g') =मेपराशयधिग्रहदेवता-। h') भावे कृत्य: (पा ३, १, १०७)।

मेघा(प-आ)रुह- -हः व ४३९:८.
 मेह¹⁶-
 मेह-स्तम्भन- -नम् व ४२८:५.
 मेहन^{1b}- -नम् त्रिधा २, १३१.
 मेहन-पार्श्व- -र्ध्वं त्रिधा २, १२५०.
 १मैत्र- १मित्र- द्र.
 २मैत्र- √मिद् द्र.
 ३मैत्र¹-
 मैत्र-स्थान-समन्वित- -तम् शि२,
 १६.
 मैत्रायणी- २मित्र- द्र.
 मैत्रावरुण-मैत्रावरुणी- १मित्र- द्र.
 मैत्रि- २मित्र- द्र.
 मैत्री- √मिद् द्र.
 मैत्रेय- , मैत्रेयी- मित्रयु- द्र.
 मैथिली- मिथिला- द्र.
 मैथुन- √मिप् द्र.
 मो ३मा द्र.
 √मोक्ष, १-२मोक्ष-, √मोक्षि,
 मोक्षिन्- √मुच् द्र.
 १मोघ¹- -यम्¹ आपे ८:१४; गी ३,
 १६.
 मोघ-कर्मन्- -माणः गी ९, १२.
 मोघ-ज्ञान- -नाः गी ९, १२.
 मोघा(प-आशा)>श- -शाः गी
 ९, १२.
 २मो(घ>)घा¹⁶- -घाम् सुवा ९.
 मोचक- , मोचन-, √मोचि/मुच् द्र.
 मोद- , मोदक-, मोदन-, मोदनीय-,
 मोदमान-, √मोदि, मोदित-,
 मोदिन्-, मोदिनी- √मुद् द्र.
 मोद- , मोदक-, मोहन-, मोहयत्-,
 √मोहि, मोहित-, १-२मो-
 दिनी- √मुद् द्र.
 मौक्तिक- , मौक्तिकी- २मुक्त- द्र.

मौजायनी- २मुञ्ज- द्र.
 मौखी- १मुञ्ज- द्र.
 मौद्वल्य- १मुद्वल- द्र.
 मौन-, मौनिन्- मुनि- द्र.
 मौर्व्य- मूर्ध- द्र.
 मौलि^h-
 मौलि-स्थ-कुम्भ-परिरक्षण-
 धी- -धीः वरा २, ८२.
 मूक्यश¹ व ४२७:१७.
 म्यहम्¹ वृ १, १५.
 म्रंक् लां २१६:१७.
 म्रियमाण- √मृ द्र.
 म्र्युं¹ व ४२७:२१.
 √म्लुच्, म्लोचन्ति वृ १, ५, २२.
 म्लेच्छ^h-
 म्लेच्छ-कुल- -लात् १संन्या २, ७१.
 म्लेच्छ-मूर्ध-पठित- -कैः शि७, ८५.
 √म्ले
 म्लान-
 म्लान-लक्ष्मी- -क्ष्मीम् शि ६,
 ११७.

धय- यद्- द्र.
 २यं¹ व ४३५:२०.
 यक्षत्¹⁶- -कृत् वृ १, १, १.
 १यत्¹- -क्षम् के ३, २; ३; ६; ७;
 १०-१२; वृ ५, ४, १¹; १शिशं
 २९¹; २शिशं ३९¹.
 २यक्ष¹⁶- -क्षः नाद १३; १योत.
 ११०; -क्षान् वृ ५, १५; वउ
 ५, १०; -क्षाय व ४३५:२०.
 यक्ष-किन्नर- -राः कर् १६.
 यक्ष-गन्धर्वा(वे-अ)पंसरो-
 गण-सेवित- -तम् वृ १, ३;
 वृ १, ६.
 यक्ष-रक्षः-पिशाच- -चानाम्
 शि ५, ३.
 यक्ष-रक्षस्- -क्षस्ताम् गी १०,
 २३; -क्षांसि गी १७, ४.
 यक्ष-राक्षस-गन्धर्व- -वांः सुवा
 २; -वांन् सुवा २; ४.
 यक्ष-राक्षस-भूत-गण-
 यक्षराक्षसभूतगण-पिशा-
 चो(च-उ)रग-प्रहा(ह-आ)दि-
 -दीनाम् मैत्रि ७, ८.
 यक्ष-राज- -जेन त्रिशि ३८२:
 १९.
 यक्षा(क्ष-अ)धिपति- -तये व
 ४३५:२०.
 यक्षा(क्ष-अ)न्त- -न्ताः वि १२.
 यक्षो(क्ष-उ)पासक- -काः सार
 २३५:७.
 यक्ष्यमाण- √यज् द्र.
 √*यच्छ, यम्(यमेने), >यमि,
 यच्छति छां ८, ३, ५; यच्छेत् क
 १, ३, १३.
 यमयति वृ ३, ७, १:२-२३.

य

१य¹
 १य-कार- -रम् घ्या ९५¹.
 यकारा(र-अ)क्षर-भासुर-
 -रम् १योत ९५-९६.
 १यं¹ रार २, ८२; आष ३९६:२;
 व ४२७:२३; हंपो १२.
 यं-कार- -०२ थत् ५.
 २य¹⁶
 २य-कार- -रः ता १, २¹.
 ३य¹⁶
 ३य-कार- -रः मिशि ३८२:१४.

a) व्युः = रोगविशेष- । b) = मेद्- । c) कुक्षिमे¹ इति तिसा । d) व्युः = शौचकिया- । e) वैप१
 यद् । f) वा. द्विवि. द्र । g) व्युः = नाडीविशेष- । h) व्युः । i) 'दाषय->न्ययम्' इत्यस्य मुञ्जजपार्थ
 पिपर्षासः । j) 'नमाम्यहम्' इत्यस्त्वादिशिष्टांशः । k) = धीमन्प्रविशेष- । l) = वर्षी- वा धीमन्प्रविशेष- वा ।
 m) 'नरापण->आष' इत्यस्त्वादिप्रतिममस्यम् । n) 'शिष->वाय' इत्यस्त्वादिप्रतिममस्यम् । o) वृ. टि. कुं ।
 p) अर्थः १ वैप१ यद् । q) मा ३४, २ । r) = देवयोनिविशेष- ।

यत्-त्ताः सु ११^६.
 यत्-चित्त-त्तस्य गी ६, १९.
 यत्-चित्ता(त-श्रा)त्मन्-त्स्मा
 गी ४, २१; ६, १०.
 यत्-चित्ते(त-इ)न्द्रिय-क्रि-
 (या>)य-यः गी ६, १२.
 यत्-चेतस-त्तसाम् गी ५, २६.
 यत्-वाक्-काय-मनस-त्तसः
 (ःनाः^७) सूता २, ५.
 यत्-वाक्-काय-मानस-त्तसः
 गी. १८, ५२.
 यत्-वाच्-वाक् मैत्रि ६, ९.
 यथा(त-श्रा)त्मन्-
 यतात्म-वच्-वान् गी १२,
 ११.
 यथा(त-श्रा)त्मन्-त्स्मा गी
 १२, १४; त्स्मानः गी ५, २५.
 यथा(त-श्रा)हार-त्तः ते १, ३^०.
 यत्ते(त-इ)न्द्रिय-यः कुं १३.
 यत्ते(त-इ)न्द्रिय-मनो-बुद्धि-
 -द्धिः गी ५, २८.
 यन्तु-न्ता नाप ६, १, छाग २५:४^१.
 यन्त्रा^{१६}-न्त्रः व ४६३:१९; न्त्रम्
 त्रिवि ७, ४९^१; सार ३, १^१; राष्ट्र
 ४, ६५; ६७; सूता ५, १, २; नापू
 ६, ४; सुसु ६; तारा ८३:२४;
 -न्त्रस्य त्रिवि ७, ४८; सूता ४,
 १; न्त्रे सूता ६, १; ८; न्त्रेण
 गर्भ ४, राष्ट्र १, १३.
 यन्त्र-कल्पना-न्ना राष्ट्र १, १३.
 यन्त्र-राज-जम् सुसु ७; जाय
 व ४६३:१८.
 यन्त्र-लोल-ले महा ३, ३९;
 या २, ५^२.
 यन्त्रा(न्त्र-श्रा)ह-दशक-जम्

सौ १, २.
 यन्त्रा(न्त्र-श्रा)रूढ-द्धानि गी
 १८, ६१.
 यन्त्री/कृ
 यन्त्री-कृत-
 यन्त्रीकृत-बुध-त्रिकोण-
 यन्त्र-मध्य-ध्वे व ४३३:९.
 यम^{११}-०म ई १६, वृ. ५, १५,
 १५^१; व ४३९:१९; नमः वृ १,
 ४, ११; ३, ९, २१; मै ४, १३;
 मैत्रि ५, १; अशि २, २१; वृषू
 ४, १५, २५; कौ ४, १५; ते ६,
 १९; राउ ४, १३; ए ११; यर; व
 ४३९:१८; १९, ४४४:२२; गी
 १०, २९; ११, ३९; मम् श १३;
 इ १३:४, ५^१ व ४४०:२, ४४५:
 ७, ४५०:१०; ४५३:१९; मस्य
 क १, १, ५; मना २, ४८^१; माय
 त्रिवि ७, ४७; गोउ ६६^१; ५^१ व
 ४४०:१^१; ४४५:७^१; ४५०:६;
 १०; ४५३:१९^१; मेन त्रिवि
 ३८३:१.
 याम-
 यामी^{१०}-०मि व ४३१:
 १६^१; ४५०:६^१; म्याम् राधा
 १, २१; व ४३९:१८, ४४४:
 २२; ४५०:६.
 याम्य^{१०}-म्यस्य
 जाद ४, २०^१; म्ये त्रिभा २,
 ११८; म्येन जाद ३, ८.
 याम्य, म्या^{१०}-
 म्यायाम् शि ६, ८३; म्ये हं ८;
 राष्ट्र ४, ३१^१.
 याम्य-कर्णा-
 (र्ण-अ)न्त-न्तम् शा १, ४.

याम्य-दिश-
 -दिशम् व ४२८:१०.
 याम्य-नासा-
 (मा-अ)न्त-न्तम् शा १, ४;
 जाद ४, १८^१.
 याम्य-नेत्रा-
 (त्र-अ)न्त-न्तम् शां १, ४.
 यम-क्षय^१-ये भव १, ३.
 यम-जिह्वक-कम् व ४३०:
 १६.
 यम-वृषड-०ण्ड व ४३५:
 ११.
 यम-देव(ता>)त-त्तः वृ ३, ९,
 २१.
 यम-देवत्य-त्यम् रुजा २, १२.
 यम-द्वार-रम् व ४२७:२२.
 यम-पुत्री^१-री राधा ४, ५.
 यम-मण्डल-लम् व ४३९:
 १९; २०.
 यम-मुख-खेन व ४३८:११.
 यम-राज्य-ज्यम् मैत्रि ६, ३६.
 यम-लोक^१-कः ते ६, १९.
 यमलोक-ज्ञान-न्तम् शां १,
 ७, ५२.
 यम-विषय-स्य-स्यस्य मै ४,
 २^१; मैत्रि ४, २.
 यम^{११}-मः ते १, १५; १७; १योत
 २४; त्रिभा २, २८^१; २अव
 ३३७:३५^१; जाद १, ४; वरा
 ५, ११; म्नाः शां १, १^१; त्रिभा
 २, ३३; मं ६, १, ३; जाद १, ६;
 वरा ५, १३; शि ७, १०१; योत्
 २, ३०; म्मेपु १योत २८; नाप
 ६, २६; म्मैः त्रिभा २, ५३; सार
 २३१:१४.

a) 'इति' इति श्रवणा. b) पा. ? यनि. शोधः द. । c) नस । d) वस. । e) जिता^० इति श्रान. ।
 f) 'यन्तारम्' इति वे. । g) वैप १ यर. । h) 'के' इति निसा. यनि. शोधः दः (तु श्रवणा) । i) कर्षि हृत् = देवविशेष- ।
 j) वा ४०, १, १७ । k) ऋ १०, १४, १३ । l) शौ ७, ५५, १ । m) 'पित्रे' इति श्रान. । n) = देवीविशेष- वा दिग्-
 विशेष- वा । o) विप. । p) पा. ? सामर्थ्यात् गाउ. स. स्यात् । q) विशेवि. । r) 'यामे' इति श्रान. । s) यामना^०
 इति श्रवणा. संदि. । t) उप. = रक्षय- । u) 'स्यः' इति श्रवणा. । v) भावे हृत् ।

यम-नियम- -साम्याम् शां १,
३, १२*.

यमनियम-युत- -तः शां
१, ५.

यम-नियम-प्राणायाम-प्रत्या-
हार-कला-मुख-भावि-
(तं)वा- -ता सार २५० : २.

यम-नियमा(म-आ)सन-प्राणा-
याम-प्रत्याहार-धारणा-ध्यान-
समाधि- -घयः शां १, १;
-धिभिः सी ३६ ; योसू २, २९.

यमनियमासनप्राणायाम-
प्रत्याहारधारणाध्यानसमाध्य-
(धि-अ)ष्टा(ष्ट-अ)ङ्ग-योग-
-गः २अव ३३७ : १.

यमा(म-आख्या)>ख्य- -ह्यैः
भव ३, २४.

यमा(म-आ)दि- -दिभिः त्रिवा
२, १३४.

यमाद्य(दि-अ)ष्टा(ष्ट-अ)ङ्ग-
योग- -गाम् ते ५, ७९.

यमाद्यष्टाङ्गयोग-संकल्प-
-रूपः नि ३८.

यमाद्य(दि-अ)ष्टा(ष्ट-अ)-
ङ्ग-साधन- -नैः त्रिवा २, २३.

यमाद्य(दि-अ)ष्टा(ष्ट-अ)ङ्ग-
संयुक्त- -क्तः जाद ५, ३.

यमाद्य(दि-आ)सन-जा-
(ज-आ)पास-हठा(ठ-अ)-
भ्यास- -सात् वरा ४, ३९.

यमिन्- -मिनः योचू ९८;
-मिनाम् शां १, ७, १.

यमम्- -मः निर १, ७.

यम-ल- -लैः सार २६२ :
१५.

यमयत्- -यत् बा १२.

√*यच्छु(दाने), यच्छति मुवा ५;

यच्छतः १योत १२२; योशि १,
१०५; यच्छतु मना १, १०९^०;
यच्छ मना १, १०९^०; यच्छेत्
सिशि ३८३ : ५.

√यज्, >याजि, यजते वृ १, ४, १६;
३, ८, १०; मृपू ५, १७; अठ्य
७; १अव ६; वव ५, १४; १६;

यजति मैत्रि ६, ९; त्रिता २,
७३; ३, १९; ग १८^०; गोड २६;
६२; आथ ३९९:२०; यजन्ते

गोपू २१^०; गी ४, १२; ९, २३;
१६, १७; १७, १; ४^०; यजन्ति
भ २, २६; गोपू १५; गोड
२६^०; ३३; ३४; ६२^०; सार

२३५ : १; २; गी ९, २३; यजे
वृ ६, ३, १; यजामहे मैत्रि ६,
३४; मना २, ५६९^०; त्रिता १,
८९^०; ४, ६^०; ७; लि ३०९:९९^०;

२शिंस २४९^०; ९^०व ४३० : १;
४३८:१६; ४३९:३; १३; २३;
४४०:१०; २०; ४४१:८; १८;
४४२:६; १७; ४४३:४; १४;

४४४:८; १८; ४४५:५;
१६; ४४६:३; १५; ४४७:२;
१३; ४४८:१; १२; २३; ४४९:
१०; १७; ४५०:२; ८; १६;

२३; ४५१:८; १५; २२; ४५२:
८; १६; २३; ४५३:५; ११;
१८; २३; ४५४:६; १४; २१;
४५५:४; यज वृ १, ४, ६^०; वि
३१; भयजन्त मवा १०९^०;

यजेत् इ १९ : १४; यजेत् रार
३, १; कुं २; त्रिता २, ७२; गोपू
१८; ४९^०; सी १, ३; शि ५, ५२;
आथ ३९९:१८; कर्मि ६^०; वपू
२, ४; यजेय वृ १, २, ६.

इंजे वृ ३, १, १; अठ्य४; यक्षयते

छां १, १०, ६; यक्ष्ये गी १६, १५.
इक्ष्यते गी १७, ११-१२.
याजयति वृ ४, १, ३; याजय औ
१, १.

इक्ष्यमान(>)ना- -नाम् चू ७.
इक्ष्या^०- -यया गी ११, ५३.

इष्ट- -ष्टः गी १८, ७०; -ष्टम् छां
८, ५, १; वृ ४, १, २; ५, ११;
अशि ७, ५; च २१ : १०; गार
४०८ : १३.

इष्टा(ष्ट-आ)दि-कारिन्-
-रिणाम् ब्रम् ३, १, ६.
इ(ष्ट>)ष्टा-पूर्त^०- -तैम् सुं १,
२, १०; मना १, २९^०; -तैक १, १,
८; प्र १, ९; छां ५, १०, ३; -तैन्
सार २८०:२०; -तैः ब्र १, पत्र १^०.

इष्टापूर्त-क्रि(य>)या- -ये
का १३; नार १२.
इ(ष्ट>)ष्टा-पूर्ति- -तैः इ ११:६.
इ(ष्ट>)ष्टा-सुकृत- -जे वृ ६,
४, १२.

इष्टवत्- -वान् राड ५, ४; महा
६, ८३.
इष्टि^०- -ष्टयः प्रा ३-४, १; -ष्टिम्
प्र १, १२; जा ४; नाप ३, ७७;
पप ४१८:८; कुं २; या १, १;
कथु १; -ष्ट्या १अव ६.
इष्टि-व्याजुक- -क्तः वृ १, ५, २.
इष्ट्वा छां ४, १६, ३; ५, ८, ५, १^०;
अवि ५४, त्रिता ४, २; कठ १;
कथु २, ३; गी ९, २०.
इंजाव- -जानाम् क १, ३, २.
यक्ष्यमाण- -णः छां ५, ११, ५; औ
१, १.
यजत्- -जन्तः आथ २^०; गी ९,
१५.
यज(त>)ता- -ता सार २, २९^०.

इष्टवत्- -वान् राड ५, ४; महा
६, ८३.
इष्टि^०- -ष्टयः प्रा ३-४, १; -ष्टिम्
प्र १, १२; जा ४; नाप ३, ७७;
पप ४१८:८; कुं २; या १, १;
कथु १; -ष्ट्या १अव ६.
इष्टि-व्याजुक- -क्तः वृ १, ५, २.
इष्ट्वा छां ४, १६, ३; ५, ८, ५, १^०;
अवि ५४, त्रिता ४, २; कठ १;
कथु २, ३; गी ९, २०.
इंजाव- -जानाम् क १, ३, २.
यक्ष्यमाण- -णः छां ५, ११, ५; औ
१, १.
यजत्- -जन्तः आथ २^०; गी ९,
१५.
यज(त>)ता- -ता सार २, २९^०.

इष्टवत्- -वान् राड ५, ४; महा
६, ८३.
इष्टि^०- -ष्टयः प्रा ३-४, १; -ष्टिम्
प्र १, १२; जा ४; नाप ३, ७७;
पप ४१८:८; कुं २; या १, १;
कथु १; -ष्ट्या १अव ६.
इष्टि-व्याजुक- -क्तः वृ १, ५, २.
इष्ट्वा छां ४, १६, ३; ५, ८, ५, १^०;
अवि ५४, त्रिता ४, २; कठ १;
कथु २, ३; गी ९, २०.
इंजाव- -जानाम् क १, ३, २.
यक्ष्यमाण- -णः छां ५, ११, ५; औ
१, १.
यजत्- -जन्तः आथ २^०; गी ९,
१५.
यज(त>)ता- -ता सार २, २९^०.

इंजाव- -जानाम् क १, ३, २.
यक्ष्यमाण- -णः छां ५, ११, ५; औ
१, १.
यजत्- -जन्तः आथ २^०; गी ९,
१५.
यज(त>)ता- -ता सार २, २९^०.

इंजाव- -जानाम् क १, ३, २.
यक्ष्यमाण- -णः छां ५, ११, ५; औ
१, १.
यजत्- -जन्तः आथ २^०; गी ९,
१५.
यज(त>)ता- -ता सार २, २९^०.

a) यमनियमासं इति अस्या। b) पाथे, कृते अस्या. संति. द्र.। c) धा. अर्थैः = सहजयुगलान्यतर-। d) तैषा १०, १, १०। e) श्र १, २२, १५। f) इति इति त्रिषा, धान.। g) श्र ७, ५९, १२। h) श्र १, १६४, ५०। i) 'भजेत्' इति धान.। j) वैश्व. यद.। k) तैषा १०, १, ३। l) 'तंक्त' इति त्रिषा.। m) 'इष्टा' इति त्रिषा। n) श्र ५, ४३, ११।

५५वज्र-००त्राः प्र सुं मां अशि अ
वृजा शां; वृषु शां; २, १५; नाप
सी रा मना त्रिवि रा र रापु शां
पप अक्ष सु १आ पाशु पत्र त्रिता
दे भा व भ म मवा गोपु ह ह
दत्ता गर अवि पहं शां; सि पित्र
शां.

यजन- भे गोपु २६०.
यजमान- नः प्र ४, ४; सुं २, १,
६; छा १, ११, १; ३; २, २४, ६;
१०; १५; ४, १६, ३; वृ ३, १,
३-६; मैत्रि १, १; ६, ३४; गर्भे
५; मना २, ८०; प्रा ३-४,
१; २प्र ३६; १२; नापु १, ६;
सार २६१; १६; सु २९; ५व
४४०: २३; ४४६: ६; ४५१: १;
२; ४५४: ९; नम प्र ४, ४; सुं
१, २, ६; छा ४, १७, १०; वृ ३,
८, ९; मैत्रि ६, ३३; म २, १५;
नस्व छा २, २४, २; ५; १५;
वृ ६, ४; मैत्रि ६, ३३; १संन्या
१, १; कथु १, १; न्नाः मैत्रि ६,
३५; नाय छा २, २२, २; २४, ५;
९; १४; वृ १, ३, २८; मैत्रि ६,
३५; दे २.

यजुस- नुः तै २, ३, १; छां १,
४, ४; ७, ५; वृ ५, १३, २; मै
५, ५; मैत्रि ६, ५; ३५; मना २,
७९; अशि १, ७; वृपु १, ६;
७; ४, २; कौ २, ६; प्या १०;
मुद्र ३; अय्य २; ५; सू १०;
रुह २८; त्रि १६; २प्र ३४: ३;
१०; वपु १, ६; ७; ३; १; गी ९,
१७; नुभिः प्र ५, ४; वृ २, २;

वृ ३, ३; अ १; ए १०; न्युर्वा:
छां ४, १७, ३; न्युवा छां १, ४,
३; वृ ५, १३, २; सु १, १, १९;
न्युवा वृपु ४, ८; १०; वृजा ३, १७;
अय्य ३; सूता ३, ४; न्युवा
छां ४, १७, ५; मना २, १४; ५;
सी २५; २प्र ३६: १८; न्युपि
छां १, ४, ३; २प्र ३४: ३; न्युपि
प्र २, ६; सुं २, १, ६; तै १, ५,
२; छां ३, २, १; २; ४, १७, २;
६, ७, २; वृ १, २, ५; ५, १४, २;
६, ५, ३; मना २, १४; २९; ३;
कौ १, ५; वृजा ८, ५; वृ ५, १८;
सुवा ६; सी २२; ए ७; गरु
११; इ ११: १२; छागर ३: ३;
१शिसं ५; २शिसं ६; गा
३; सु २९; वव ५, १७.

याजुव-
याजुपी- पीयू वृपु
४, १२.

याजुव-मन्त्रो(न्य-उ)-
पासक- कः त्रिता ४, १७.
यजुद-गायत्री- श्री वृपु ४,
११.
यजुद-भय- न्यम कौ २, ६;
वृजा ६, १२; वृ ५, ८.
यजुद-वेद- नः सुं १, १, ५;
छां १, ३, ७, ३, २, १; ७, १, ४; वृ
१, ५, ५; ४, १, २; मैत्रि ६, ३२;
वृपु २, २; वृ ३, ३; सुवा २;
काला १५; मवि ५; महा १, १;
जाया २३; आव ७; च २०: ६;
१प्र ३१: ७; नापु ५, ४; सिशि
३८: ११; गार ४०६: ५; दम

छां ३, २, २; १५, ७; ७, १, २; २'
१; ७, १; २प्र ३२: १२; ३६:
२०; न्दे २प्र ३४: १७; सूता १,
१४; सु २९: १२.

यजुर्वेद-प्रपठन- नम म
४९: ४.

यजुर्वेद-वाच्य- च्यः वृपु
१, १२.

यजुर्वेद-शिरस- रः ना २.

यजुर्वेद-संहिता(ता)वा

-ता गार ४०६: २१.

यजुपु- (<)स(>) छां ४,
१७, ५.

यजु (सुसु)दर- रः कौ १, ७.

यजु- न्ना मना २, ७७; २संन्या
१६: ११; नः प्र २, ६; छां २,
२३, १; ३, १६, १; ४; ४, ४,
१६, १; ३; ५; १७, ८; ९; ८, ५,
१; वृ १, ४, १७, ५, १७; ३, १,
६; २१; मैत्रि १, १; ६, १६;
मना २, ६८; ७८; ७९; म
३, ६; नाप ४, ३८; वे ४, १८;
१संन्या १, १; २संन्या १६:
१३; ५प्र ४१: २०; ए २; सू
८; सावि ४; पाशु १, १२; कक
१; रुह २०; प्रा १, ६; शा
१५; २प्र ३३: १४; १शिसं ४;
२शिसं १; सि ७, ४०; ५व
४४०: २; ४४५: ७; ४५०:
१०; ४५३: १९; कपु १, १;
२, २; गी ३, १४; ९, १६; १६,
१; १७, ७; ११; १८, ५; नम
तै २, ५, १; छां १, १०, ७; ४, १६,
३; ५; १७, १०; वृ ३, १, ९; ७, १;

a) ऋ १, ८९, ८ । b) ०नेन इति मिसा, अान. । c) तैत्रा १०, ६४, १ । d) ऋ १, २४, ११ । e) =गया-
मन्मन्त्र- वा तदाश्राय- वा । f) तैत्रा १०, ६३, १ । g) पा. १०५५ इति श्लोकः द. । h) तैत्रा १०, १३, १ ।
i) तैत्रा १०, १३, १ । j) तैत्रा १०, २२, १ । k) तैत्रा ३, १२, ८, १ । l) मा १२, ४ । m) मा ३४, ५ ।
n) सप्त ०९ इति शांभा ४, ६ । o) =वेदविशेष- । p) संधिराजः द. । q) तैत्रा ३, ७, ६, २० । r) शौ ७, १०२, ५ ।
s) तैत्रा १०, ३१, १ । t) तैत्रा १०, ६२, १ । u) तैत्रा २, ५, ८, ८ । v) शौ ७, १०२, ६ । w) मा ३४, ४ ।
x) ऋ १०, १४, १३ ।

मैत्रि ६, ३४; मना २, ६९^५;
 १०९^५; ७९९^५; नाप ३, ३२; छ,
 ३८९^५; सुद्र १, ७९^५; रसंन्या १६:
 ११९^५; मवा १०९^५; प्रा २, १; सर
 २, २९^५; ३९^५; ४९^५; इ ११: १२;
 तुल ७१: १७; अरु ३९^५; गी छ,
 २५^५; १७, १२; १३; -ज्ञस्य छा
 २, २४, १६; छ, १७, ४-६; ८; वृ ३,
 १, ३-६; मना २, ५७^५; ७७^५;
 ८०^५; इ १२: ११; २. प्र ३३:
 १३; ३६: १७^५; रशिसं ७;
 ९^५ व छ ३२: १५; छ ५५: २०;
 छ ५०: ३; छ ५३: १३; -ज्ञा:
 सुं २, १, ६; वृ १, ५, १७; धे छ,
 ९; गी २, २२; वृ. २; सुधां छ^५;
 पाशु १, १६; १९; शौ ५२: २;
 सार २७८: ८; शु २९; ५५;
 वट २, ३७; भव ५, १३; गी छ,
 ३२; १७, २३; -जाव गी ३, १४;
 छ, ३३; -जाव वृ १, २, ५; २. प्र
 ३२: ३, ७; कालि छ ०२: ९^५;
 -ज्ञानाम् मना २, ७९^५; वा
 १५; पित्र ३, ७; गी १०, २५;
 -ज्ञाय अव्य छ; नाव २, १२;
 स शां^५; गी छ, २३; -ज्ञे वृ १,
 ३, १; २५; ३; १, ७; ८; १०; ९,
 २१; मना २, १२, २९^५; २, ७८^५;
 ७९^५; जाव छ, ५, ७; शिसं २९^५;
 रशिसं ३९^५; पो १०; गी ३,
 १५; १७, २७; -ज्ञेन वृ १, २,
 ६; ३; १, १; छ, ४, २२; ६, २, १६;
 मना २, ७९^५; सुद्र १, ९९^५;
 मवा १०९^५; गी छ, २५; -ज्ञेय

त्रिता १, १६; वृष ८५: १६; गी
 ८, २८; -ज्ञै: सुवा ९; वा ३८;
 कर १; पा १, १०; कथु २, ३;
 गी ९, २०.
 वाञ्छिक^{१२} -कान् वृ ३, ७, १^१
 यज्ञ-कर्मन् -मैणा सार २३५: २.
 यज्ञकर्म-वासना(ना-ध्या) -
 र्मक-लिङ्ग-शरीर- -रेपु सार
 २९०: १५.
 यज्ञ-कल्प-तरु- -रवे त्रिवि ७,
 ४३.
 यज्ञकल्पतरु-वन- -नम् सि
 १, १३.
 यज्ञ-क्रतु- -तूनाम् मना २,
 ७९^५.
 यज्ञ-क्षपित-कल्मष- -पा: गी
 छ, ३०.
 यज्ञ-तपस् -पसाम् गी ५, २९.
 यज्ञतपः-क्रिया- -या: गी
 १७, २५.
 यज्ञ-दान-तपः-कर्मन् -मै गी
 १८, ३.
 यज्ञ-दान-तपः-क्रिया- -या:
 गी १७, २४.
 यज्ञ-नेवृ- -ता ए ७.
 यज्ञ-पति- -तिम् रसंन्या १६:
 ११९^५; -०ते रसंन्या १६: १३९^५.
 यज्ञ-परिवृत्- -वृता प्रा २, १^५.
 यज्ञ-पात्र^{१२} -ग्रम् वृ ३१: २२;
 -प्राणि गर्भे ५; प्रा ३-छ, १.
 यज्ञ-फल- -लम् शि ६, २८३;
 २८४.
 यज्ञ-बहिष्-कृत- -ता: भव

छ, ७.
 यज्ञ-भावि- -ता: गी ३, १२.
 यज्ञ-भुज्- -भुक् पाठ १, ११.
 यज्ञ-रूप- -पा: सुं १, २, ७.
 यज्ञ-वचस्^{१५} -वसः, -चा: वृ
 ६, ५, ४.
 यज्ञ-वलक^{१५} -
 याज्ञवल्क्य^{१५} -००ल्क्य वृ ३,
 १, २-१०; २, १; १०-१३; ३, १^५;
 ४, १^५; २; ५, १^५; ६, १, ७, १^५; ३;
 ८, २; ३; ५, ६; ९, १^५; १०-१७;
 १९-२३; छ, १, १, २^५; २, १;
 ४; ३, २^५; ५; ६; १५; १६; जा ५^५;
 राठ १, १^५; या २, १; -ल्वयः वृ १,
 ४, ३; २, ४, १; २; ४; १२; ३, १,
 २; ३, ११; ९, १८; २५; छ, १,
 १-७; २, ४; ३, १^५; ३; ३; ३; ३;
 २३; ५, १-३; ५; १३; १५; ६, ३;
 ८; ५, ३; जा १^५; २; ३^५; ५^५;
 ५; वृजा ७, १-३; मं १-छ, १, १;
 राठ १, २; ३-५, १; पै १, २; २,
 २; ३-छ, १; ता १, १; २; ३;
 १; या १, १^५; २, १; गार ४०५;
 १; वृ १; २, ३; २, ४; २, ३८; ३९;
 -ल्वयम् जा १; २; छ; ५^५; वृजा
 ७, १-३; ४^५; राठ १, १;
 ३-५, १; पै १-छ, १; या १-२,
 १; ता १, १; २; ३, १; सु १, १,
 ३८९^५; -ल्वयश्च वृ छ, ५, १;
 -ल्वयात् वृ ६, ५, ३; -ल्वयाय
 वृ ६, ३, ७; -ल्वयेन वृ ६, ५, ३.
 यज्ञ-वास्तु- -स्तु शौ ५१: ३;
 ५२; १४; ५३: २.

a) तैष्या १०, ५, १ । b) तैष्या १०, ८, १ । c) तैष्या १०, ६३, १ । d) तैष्या २, ५, ८, ८ । o) ऋ १०, ९०, ७ । f) शौ ७, १०२, ५ । g) ऋ १, १६४, ५० । h) ऋ ५, ४३, ११ । i) ऋ १, ३, १० । j) ऋ १, ३, ११ । k) ऋ १०, १५७, ३ । l) तैष्या ३, १०, ८, २ । m) तैष्या ३, ७, ६, २० । n) तैष्या १०, ६४, १ । o) ऋ १, १, ११ । p) ऋ १, १२, ११ । q) 'यान्' इति तात्रिणः । r) सि १०, १११, १५ । s) ऋ ४, ५८, २ । t) तैष्या १०, ६३, १ । u) मा ३४, २ । v) तैष्या १०, ६३, १ । w) शौ ७, १०२, ६ । x) 'वृते' इति ध्यानः । y) = गोप्रप्रवर्तक-ऋषिविशेषः । z) 'ल्वयः' इति ध्यानः । a') 'ल्वय' इति धन्याः । b') सकृन् 'ल्वय' इति धन्याः । c') 'ल्वय' इति ध्यानः । d') 'ल्वय' इति नियाः यनिः योषः प्रः । o') = तदाख्योपनिषद्विशेषः ।

यज्ञ-विद्- -विद् व्र ३, ६;
-विद्: गी ४, ३०.

यज्ञ-भक्त- -ति: शि ५, १९.

यज्ञ-शमल- -लम् मना १,
११५^०.

यज्ञ-शिष्टा(ष्ट-अ)मृतं-भुञ्-

-भुञ्: गी ४, ३१.

यज्ञ-शिष्टा(ष्ट-आ)किन्-

-शिन: गी ३, १३.

यज्ञ-साधारणा(ण-अ)ह- -हम्

पाशु १, १५.

यज्ञ-सूत्र- -त्रम् पाशु १, १६;
१७; १९^०; गृह ५.

यज्ञसूत्र-संबन्ध-

यज्ञसूत्रसंबन्धिन्- -न्वी

पाशु १, १६.

यज्ञ-स्तोम- -मम् महा १, १.

यज्ञा(ज्ञ-अ)ह- -हम् पाशु १,
२२; शि ६, २८३.

यज्ञाह-लक्षण-ग्रह- -ह्व-

रूप- -प: पाशु १, १५.

यज्ञा(ज्ञ-आ)दि- -दे: सांख ५,
४२.

यज्ञादि-श्रुति- -ते: ब्रम् ३,
४, २६.

यज्ञा-यज्ञा^०

यज्ञायज्ञिय^० - -यम् गृह
११५^०.

यज्ञायज्ञीय^० - -यम् छां
२, १९, १; २.

यज्ञा(ज्ञ-अ)र्थ- -र्थां गी ३, ९.

यज्ञि(य>)या- -या नाप ४,
३८; -याम् भा १३.

यज्ञो(ज्ञ-ई)श्वर- -शाय नाउ२, १२

यज्ञो(ज्ञ-उ)पवीत^० - -०त् नाप

४, ३८^०; -तम् जा ५, ६;

आह १; ५; वी २, ७; पहं २;

निर्वा २९८: १०; व्र २^०; ३, ६;

नाप ३, ३२; ७७; ४, ३८^०; १५^०;

१संन्या १, १^०; २, ६^०; पप ४१८:

२३; ४२०: ७; पत्र ३, १२; कश्र १^०;

२; या १, १; २, १^०; अह्नै २५; सूता

३, ७; कश्रु १, १^०; २, २; ३; ३, २.

यज्ञोपवीत-धारिन्- -रिण:

आश्र ४.

यज्ञोपवीतिन्- -तिन: व्र ३,
१; नाप ३, ८१; पत्र ३, ५; -ती

आच २; व्र ३, ६; पत्र ३, १२;

य १; छु २९३: १.

यज्ञो(ज्ञ-उ)पासक- -कानाम्

सांख ४, २१.

यज्ञवृ^० - -वृजिन: मन्त्रि- ७;

-वृजान: म २, २६; अह ३०५^०.

यज्ञव्य- -व्य: मैत्रि ६, ३४^०; -व्यम्

मैत्रि ६, ३६; गी १७, ११.

याग^० - -ग: तेष्ट, २१; पाशु १, २०;

-गम् आह १.

याग-देव- -व: पाशु १, ११.

याग-व्रत-तपो-दान-विधि:

विधान-ज्ञान-संभव- -व:
नि ३९^०.

?याज^० - -जा: प्रा ३, १.

याजक^० - -क: नृपट ५: १६; -कानि

सुद २; -केषु महा ४, २४.

याजयत्- -यन्त: आश्र २^०.

याजित- -त: वा ३९.

या(ज्य>)य्या^० - -ज्यया वृ ३, १,
१०; -ज्या वृ ३, १, ७; १०^०;

-ज्या: छाग २३: १०; २४: १२.

?यजुर्मनाम्^० तुल ७०: ३.

यजुर्वेद-, यजुव-, यजुवर-, यज्ञ-

√यञ् द्र.

यिज्ञान्गुहायाम्^० पी ४२२: ३.

यिज्ञाव्यस- , यज्ञवल्क- √यञ् द्र.

√यत्(यतने), यत्ते सुं ३, २, ४; गी ६,

४३; यतति गी ७, ३; यतन्ते

म २, १४; सार २७८: १९;

यतन्ति गी ७, २९; यत्तेत त्रिवा

२, ८९; १२२; १४३.

यत्- -तत: गी २; ६०; -तता गी

६, ३६; -तताम् गी ७, १; -तन्त:

गी ९, १४; १५, ११^०.

यत्मान- -न: गी ६, ४५.

यत्- -त्त: महा ५, १८२; पा १, ६.

यत्- -त्त: अह ४, ८९; भव १, ३२;

योष १, १३; -त्तम् महा ५, ८८;

११६; अह ४, ७८; न्नात् १ योत

७२; ८२; शां १, ७, २०; महा

४, १२८; मु २, २, ५; शि ४,

११; ६, १५०; १५४; ७, ३२;

९६; -त्तेल आह ३; रा ३५^०;

महा ५, ५६; योशि ५, ३७; पप

४१९: ६; अह ४, ७६; ७७;

५, ६८; यो १, ३२; शि ६, ३;

१९७; ७, ७५; १०६.

यत्-त्तस्(>) वृजाष्ट, २; ४; रापू

४, ५१; शां १; ७, ४३; १संन्या

२, ६०; सौ २, ८; शि ३, २; ६,

५१; ११७; १७७; २४१; ७, ३३.

यत्-वत्- -वान् त्रिवा २, १०९;

१४३; जाद ६, १०^०; शि ५, ९.

√यत्(निकारि)>याति

यातना^० - -ना: भव १, ३; -नानाम्

म २, २१.

यत्- √इ द्र.

a) वैसं ७, ३, ११, १-१। b) चम^० इति निसा। c) अह १, १६८, १ ह्ययप्रत्ययमिदं पदम्। d) =साम-
विशेष-। e) मा १२, ४। f) ०त्म् इति अश्या। g) पाप २, २, १११। h) तैआ १, २७, ५। i) संस्वरुपः इति
अश्या। j) प्रया^० इति शोधः द्र. (द्र. आन., अश्या.)। k) पा. यजुर्मनस्-> नसम् इति शोधः द्र. (द्र. गण-
पृ५२५d)। l) पा. 'यज्ञमुज्जया-(=हवाह)>-याम्' इति शोधः द्र.। m) 'यत्, व' इति अश्या।
n) ज्ञान^० इति अश्या।

मैत्रि ६, ३४; मना २, ६९^०;
 १०९^०; ७९९^०; नाप ३, ३२; छ,
 ३८^०; मुद्र १, ७९^०; २संन्या १६;
 ११९^०; मवा १०९^०; प्रा २, १; सर
 २, २९^०; ३९^०; ४९^०; ५ ११: १२;
 तुल ७१: १७; अर ३९^०; गी छ,
 २५^०; १७, १२; १३; -ज्ञस्य छां
 २, २४, १६; छ, १७, ४-६; ८; वृ ३;
 १, ३-६; मना २, ५७९^०; ७७९^०;
 ८०९^०; इ १२: ११; २प्र ३३:
 १३; ३६: १७९^०; २शिसं ७;
 ९^०व छ ३९: १५; छ ५५: २०;
 छ ५०: ३; छ ५३: १३; -ज्ञा:
 सुं २, १, ६; वृ १, ५, १७; धे छ,
 ९; गी २, २२; वृ २; सुचां छ^३;
 पाशु १, १६; १९; शौ ५२: २;
 सार २७८: ८; यु २९; ५५;
 वृ २, ३७; भव ५, १३; गी छ,
 ३२; १७, २३; -ज्ञात् गी ३, १४;
 छ, ३३; -ज्ञात् वृ १, २, ५; २प्र
 ३२: ३; ७; ब्राह्मि छ ०२: ९^०;
 -ज्ञानाम् मना २, ७९९^०; वा
 १५; पित्र ३, ७; गी १०, २५;
 -ज्ञाय अव्य छ; नात् २, १२;
 स शां^०; गी छ, २३; -ज्ञे वृ १,
 ३, १; २५; ३; १, ७; ८; १०; ९,
 २१; मना २, १२, २९^०; २, ७८^०;
 ७९^०; जाद छ, ५७; १शिसं २९^०;
 २शिसं ३९^०; पो १०; गी ३,
 १५; १७, २७; -ज्ञेन वृ १, २,
 ६; ३, १, १, छ, ४, २२; ६, २, १६;
 मना २, ७९९^०; मुद्र १, ९९^०;
 मवा १०९^०; गी छ, २५; -ज्ञेयु

त्रिता १, १६; वृ ८५: १६; गी
 ८, २८; -ज्ञै: सुबा ९; वा ३८;
 कर १; पा १, १०; कशु २, ३;
 गी ९, २०.
 वाञ्छिक^{१२} -कान् वृ ३, ७, १^३
 यज्ञ-कर्मन् -मैणा सार २३५: २.
 यज्ञ-कर्म-वासना(ना-श्रा)-
 र्मक-लिङ्ग-शरीर- -रेयु सार
 २९०: १५.
 यज्ञ-कल्प-तर्ह- -रवे त्रिवि ७,
 ४३.
 यज्ञ-कल्प-तर्ह-वन- -नम् सि
 १, १३.
 यज्ञ-कृत- -तूनाम् मना २,
 ७९९^०.
 यज्ञ-क्षपित-कल्मष- -या: गी
 छ, ३०.
 यज्ञ-तपस् -पसाम् गी ५, २९.
 यज्ञतपः-क्रिया- -या: गी
 १७, २५.
 यज्ञ-दान-तपः-कर्मन् -मै गी
 १८, ३.
 यज्ञ-दान-तपः-क्रिया- -या:
 गी १७, २४.
 यज्ञ-नेतृ- -ता ए ७.
 यज्ञ-पति- -तिम् २संन्या १६:
 ११९^०; -०ते २संन्या १६: १३९^०.
 यज्ञ-परिवृत्- -वृत्ता प्रा २, १^३.
 यज्ञ-पात्र^{१२} -ग्रम् वष ३१: २२;
 -श्राणि गर्भे ५; प्रा ३-छ, १.
 यज्ञ-फल- -लम् शि ६, २८३;
 ३८४.
 यज्ञ-बहिष्-कृत- -ता: भव

छ, ७.
 यज्ञ-भावित- -ता: गी ३, १२.
 यज्ञ-शुज् -शुक् पाशु १, ११.
 यज्ञ-रूप- -पा: सुं १, २, ७.
 यज्ञ-वचस्^{१५} -वचसः, -चा: वृ
 ६, ५, ४.
 यज्ञ-वहक^{१५}-
 याज्ञवल्क्य^{१६} -०-लक्य वृ
 १, २-१०; २, १; १०-१३; ३,
 ४, १^३; २; ५, १^३; ६, १, ७, १^३;
 ८, २; ३; ५; ६; ९, १^३; १०-१
 १९-२३; छ, १, १; २-७^३; २,
 ४; ३, २^३-५^३; ६; १५; १६; जा ५
 राठ १, १^३; या २, १; -लक्य: वृ
 ४, ३; २, ४, १; २; ४; १२; ३,
 २; २, ११; १, १८; २५; छ,
 १-७; २, ४; ३, १^३; ३२; ३३;
 २३; ५, १-३; ५; १३; १५; ६,
 ८; ५, ३; जा १^३; २; ३^३; छ
 ५; वृजा ७, १-३; मै १-छ, १,
 राठ १, २; ३-५, १; पै १, २;
 २; ३-छ, १; ता १, १; २;
 १; या १, १^३; २, १; गार ४०५
 १; वर् १, २३; २४; २, ३८; ३९
 -लक्यम् जा १; २; छ; ५^०; वृज
 ७, १-३; ४^०; राठ १, १
 ३-५, १; पै १-छ, १; या १-२
 १; ता १, १; २; ३, १; सुं १, १
 ३८^०; -लक्यस्य वृ छ, ५, १
 -लक्यात् वृ ६, ५, ३; -लक्याय
 वृ ६, ३, ७; -लक्येन वृ ६, ५, ३.
 यज्ञ-वास्तु- -स्तु शौ ५१: ३;
 ५२: १४; ५३: २.

a) तैष्या १०, ५, १ । b) तैष्या १०, ८, १ । c) तैष्या १०, ६३, १ । d) तैष्या २, ५, ८, ८ । e) ऋ १०, १०, ७ । f) शौ ७, १०२, ५ । g) ऋ १, १६४, ५० । h) ऋ ५, ४३, ११ । i) ऋ १, ३, १० । j) ऋ १, ३, ११ । k) ऋ १०, १५७, ३ । l) तैष्या ३, १०, ८, २ । m) तैष्या ३, ७, ६, २० । n) तैष्या १०, ६४, १ । o) ऋ १, १, ११ । p) ऋ १, १२, ११ । q) 'यज्' इति तान्त्रिः । r) वि १०, १११, १५ । s) ऋ ५, ५८, २ । t) तैष्या १०, ६३, १ । u) मा ३५, २ । v) तैष्या १०, ६३, १ । w) शौ ७, १०२, ६ । x) 'वृते' इति श्रान् । y) =गौतमप्रवर्तक-श्रान्निवेशोप- । z) 'लक्यः' इति श्रान् । a') 'लक्य' इति श्रान् । b') सहज् 'लक्य' इति श्रान् । c') 'लक्य' इति श्रान् । d') 'लक्य' इति निगा. यनि. शोषः द्र. । e') =तदाद्योपनिषद्विशेष- ।

येन के १, ४; क २, १, ३; मुं १, २, १३; तै ३, १, १; ए ५, १; छां ५, ११, ६; वृ १, ५, १९; खे ६, १; मै २, ३; ष ८; कौ २, ११; हं ११; ऋ २; येपास् प्र १, १५; वृ ४, ४, २२; ऋ ३, १; वृजा ५, ११; नाप ३, ८१; सार १, ७; अल ४, ५२; पत्र ३, ५; सार २३५: ४; गी २, ३५; वेपु प्र १, १५; मुं १, २, ७; मना २, १२, १७; मै ४, २; वि ५, ७; वेपु-वेपु राउ ५, २६; यै: मुं ३, २, १०; वृ २, १, १; मै १, ७; मैत्रि १, २; सार २५५: १२; यौ छां १, ७, ५.

यत्तर- -रे छां ८, ८, ४.
यत्त(>): क २, १, ९; तै २, ४, १; छां ५, ९, २; आ ४७; मैत्रि ६, ३४; कौ ४, १९; मना १, १७; पदं २; ऋषि ३; यत्त-यत्त: छां ४, १७, ९.
यत्ति-

यति-(य<)>धी- -य्याम् वृ ६, २, २.
यत्र क १, २, २५; प्र ४, ११; मुं १, २, ५; ११; मां ५; तै १, ६, १; छां १, २, १; वृ १, २, ३; मै ५, ७; मैत्रि ६, ७; कौ २, १४; यत्र-यत्र अना ३९; विभा २, ११३.
यत्र-रूप>रूपा- -स्था यो ३, ७.
यथा के १, ३; क १, १, ६; प्र

२, ४; मुं १, १, ७; तै १, ४, ३; ए १, ४; छां १, २, ७; वृ १, ४, ७; खे २, १४; कौ १, ४; २, १२; जु १२; नाप ८, १२; जाद ५, ११; योशि ४, १४; छाग २४: १०१; यथा-यथा मुद्र ३; सार २३९: १५; शि ३, १३; ६, १०४; २७८.
यथा-कर्मन्- -मं क २, २, ७; वृ १, ५, २१; कौ १, २.
यथा-कल्प- -व्यम् वृजा ३, ३४.
यथा-काम- -मम् प्र १, २; वृ २, १, १८; मित्र १, १६; ऋ ३, ३, ६०.

यथाकाम-वार- -र: छां ७, १, ५; २-३, ३; ४-५, ३; ६-१४, २.
यथा-काम- -म: वृ ४, ४, ५.
यथा-कारिन्- -री वृ ४, ५, ५.
यथा-काल- -लम् मुं १, २, ५; महा २, ४३; ६, ४७.
यथाकालो(ल-उ)पपञ्च-
सेवा- -वा सार २४९: ११.
यथा-प्रतु- -तु: छां ३, १४, १.

यथा-स्म- -मम् शु १, ११; ऋषि ५६; योक् १२०; मं १, १, ६; पे २, ४; योशि १, १०१; ५, १; म १, ६; शि ४, २९; शु १२; -मेग मैत्रि ६, २६; ३१; सारी १; यिता २, ४२.
यथा(धा-धा)क्रम- -म: वृ

४, ३, ९.
यथा-क्षण- -गम् महा ४, ३९.

यथा(धा-अ)क्षर- -रम् १भा ११; २भा ३.
यथा(धा-आ)गत- -तम् अल ५, ११६.

यथा-चारिन्- -नी वृ ४, ५, ५.
यथा-जात-रूप- -धर- -र: जा ६; नाप ३, ८६; -र: या २, ११.

यथा-शात- -तम् जाभा ३; सि १, २.
यथा-तथ- -यम् लिभा २, ११६; महा ५, ११; वरा २, ५७.

याधातप्य- -प्यम् योशि २, ३; -प्येन सार २९०: १२; यित १, २.

याधातप्य-तत्त(>): ई ८.

यथा-देव- -वाम् महा ४, ३९; तात ८४: २.
यथा-देवत- -तम् वृ १, ५, २२.

यथा(धा-अ)धिकार- -यथाधिकार-वच्- -यान् गुणो ४२०: ३.

यथा-निकाय- -वम् थे ३, ७.
यथा(धा-अ)नुशासन- -नम् छां ८, १, ५.

a) अग्रा. 'केन' इति शोधः द्र. (द्र. निता., आन., अग्रा. संदि.) b) सङ्ख्य 'तेन' इति आन. । c) 'यपाम्' इति SCHR. पामे. [वेतु. वे. (NTA २, २३१)]। d) तैसा १०, १०, १। e) 'येपाम्' इति अग्रा. । f) श्र ३, २९, १०। g) तैसा १०, १, १। h) 'अतः' इति आन. । i) उति: प्र. उत्तं. (पा ५, २, ४१)। j) वृटि धुगागमः उत्तं. (पा ५, २, ४८; ५१)। k) 'यत्र तत्र' इति आन. । l) 'यद्' इति आन. । m) 'यदा' इति अग्रा. । n) पा. वृटितः (वृ. तु ४-६)। o) निता. पा. 'यथा' (नृ१) इत्येवं शोधः द्र. (द्र. अग्रा.) । p) पा. 'अय' इत्येवं शोधः द्र. । q) अग. । r) वा. क्विपि. द्र. । s) 'कश्चोक्तविधिताना' इति अग्रा. । t) अग. । u) 'रः' इति पा. वृ. वनि. शोधः द्र. । v) 'रः' इति अग्रा. । w) 'यथा तया' इति अग्रा. संदि. । x) पा. वृ. वनि. शोधः द्र. । y) 'दे' इति J.C. । z) एप. = यथाविध- इति वृत्ता विर. सतः उर. मलो. अग. ।

यत्-^१यच्छ, यम्(यमने) द्र.
 यत्त-^२यत्तमान-^३यत्(यतने) द्र.
 यत्त-^४यत्त(>>) यद्- द्र.
 श्यति^५- तयः सुं३, १, ५; २, ६५^६; दे
 १२; ५^७के १, ३; ४; आरु^८; मना
 २, १२, ३^९; १संन्या २, ९८;
 ९९; सु २९४; ४; भव १, ३६; ३;
 ३३^{१०}; गी ४, २८; ८, ११; -तये
 अता १; -ति: गौ २, ३७; मैत्रे
 २, २३; २६; आरु^{११}; काला १८;
 नि ५५; ब्रवि ८०; १योत ७९;
 नाप ३, ३२; ३५; ५७; ५९; ७०;
 ७३; ४, १०; १४; ५, ११; ३; ७;
 ६, ६; ८; ३६; ३८; ७; वा १४;
 ३२; १संन्या १, १०; ५९; ७१;
 ७६; ९१; ९२; ९४; ९६; १००;
 अघ्या^{१२} २, ५१; कुं १०; १आ २५;
 कह २; यो २, ११; म १, ९; या
 २, १८; जावा २६; इ १३; ७; ऊ
 ६४; ११; गोच ६६; १४; शि ५,
 २०; स ३७९; २१; भव २, ३४;
 ३, २४; कथु ३, २; -तिना वृजा
 ८, ६; वृ ५, ११; -तिभि:
 १संन्या २, ६९; -तिषु मिता १,
 १६; -तीन् वी ३, १; म १, ९;
 -तीनाम् आरु^{१३}; वृजा ५, ६; ८,
 ६; वृ ५, १९; नाप ३, ७१; ४,
 १३; सार ५, १६; या २, २४; शि
 २, २७; ७, १०१; व ५, २४;
 गी ५, २६; -से: नाप ३, २८; ४,
 ४; ५, ११; ७; महा ४, ४; १संन्या
 २, ५९^{१४}; ७९; ८१; पत्र २; सा ८.
 यति-त्व- -त्वम् पत्र २.
 यति-विशेष- -य: नाप ५, १.

यति-वृत्ति-हृन्- -हा नाप ५, १.
 श्यति-^१यतिथी- यद्- द्र.
 यत्त-^२यत्त-^३यत्(यतने) द्र.
 यत्र, यथा यद्- द्र.
 यिथार्थकथन^४ तु ४.
 यद्-
 धय, या- य: ई ६; के २, २; क
 १, १, १८; प्र १, ९; सुं १, १, ९;
 मां ९; तै १, ३, ४; छां १, १, ३;
 वृ १, २, १; खे १, ३; कौ १, २, १;
 २प्र ३३: २, ११^५; शि ६, १८५^६;
 यम् क १, १, १९; सुं ३, १, ५;
 छां ५, १२-१४, १; वृ १, ३, २८;
 ना ४; मना १, ११^७; आबो १;
 अव्य ३; यम्-यम् नाप ५, १;
 यया सुं १, १, ५; तै ३, १०, १;
 वृ १, ५, १८; ससा १, ६; दां १,
 ७, १; योशि २, १२; रुह ३०;
 ह १; सार २३२: ६; यस्मात्
 क १, ३, ८; वृ १, ३, १९; खे ६,
 ६; पर्व ४^८; वृ २, १०^९; वृ २
 ८, ४; ते १, २०; घ्या ८२; अता
 १८; अव्य १; यस्मिन् ई ७;
 क १, १, २९; सुं २, २, २; ऐ २,
 १; छां ४, २, ४; वृ १, ५, २१; खे
 ४, ८^{१०}; ब्रवि १६; के १, १४;
 मना १, ११^{११}; प्रा १, १^{१२}; यस्मै छां
 ४, ३, ६; वृ ५, १४, ४; ७; महा
 २, ४२; पा १०, ८; कालि ४०२:
 ८; ना १६; यस्य के २, ३^{१३}; क
 १, १, ८; सुं १, १, ९; छां ३, १, ४,
 ४; वृ ३, ७, ३-२३; खे ३, २, १;
 मना १, १२^{१४}; कौ २, ४; मैत्रे २,
 १८; म ३, ३; यस्या: वृ ३,
 २, १०; अज १, ४; दे १७;

यो १, १०; सार २२१: १८;
 गु ४६^{१५}; गुपो ४२१: ६; यस्याम्
 क १, २, ३; छां १, ३, ९; वृजा
 ७, ४; महा ५, २६; सर २, ५;
 राधा ४, १; सार. २२१: १७;
 गु ५३५^{१६}; गी २, ६९; यस्यै ऐ
 २, ५; कौ २, ४; या क १, १,
 २; २, ४; प्र २, १२^{१७}; सुं १,
 २, ४; ऐ ३, २; छां १, ३, ४; १०,
 ९; वृ ४, २, ३; खे ३, ५^{१८}; कौ
 १, ७^{१९}; मना १, ८^{२०}; २, ४२^{२१};
 या: क १, १, १५; तै २, २, १;
 ऐ १, २; छां २, ४, १^{२२}; वृ २, २,
 २^{२३}; मना २, ३८^{२४}; कौ २, ५;
 वृ ४, १५, १२; योशि १, ५२;
 १संन्या २, २६; यान् सुं ३, १, १०;
 छां ४, १५, ५; वृ ६, २, १५; कौ
 २, १३; सार २१९: ७; गी २,
 ६; यानि सुं १, २, १; छां १,
 ३, ५; वृ १, ३, २८; मै २, ९;
 वृ ४, १५, २१; अव्य ५; पाणु
 १, २^{२५}; चा ६; निरु १, १६; सार
 २५४: २२; यानि-यानि शां १,
 ४; याम्याम् वृ ६, ४, २२; याम्
 क १, २, ९; सुं १, १, २; छां १, ३, ९;
 वृ ४, १, ३; अशि ५, १८; वृजा
 ६, १२; वृ ३, ४; लु १; त्रि
 १६; गह १; सर २, ८; प्रा १,
 ३^{२६}; याम्-याम् वृ ३, ८, ९;
 यासाम् सार २५०: २३; ये ई
 ३; के १, ३; क १, ३, १; प्र १,
 ९; सुं १, २, ७; तै १, ११, ३; छां
 १, ६, ८; वृ १, ५, १७^{२७}; कौ
 १, ३^{२८}; ४^{२९}; ये-ये अज ४, ४;

a) तैसा १०, १०, ३ । b) तैसा १०, १०, ३^३ । c) पा. ? 'यथाकथम्' इति शोधः द्र. (तु. गपू. वृ १८d) ।
 d) तु. टि. वृ- । e) 'यत्' इति शांसा ३, २ । f) पा. ? 'अपः' इति शोधः (तु. गोमार् १, २०) । g) पा. ? 'ये' इति शोधः द्र. ।
 h) मा ६, २२ । i) मा ८, ३६ । j) श्र १, १६४, २९ । k) मा ३२, ८ । l) 'अस्मिन्' इति आन. । m) श्र १०, ९, ३ ।
 n) मा १६, २ । o) तैसा १०, १, ८ । p) तैसा १०, ४, १ । q) सङ्कत् 'यान्' इति शोधः द्र. (तु. तैसा १०, ४८, १^३);
 वैदु. भा. भा. यनि. इति) । r) 'युगानि' इति अश्या. संति. । s) 'मा' इति पा. ? यनि. शोधः द्र. । t) निसा. आन. च
 पा. ? ये, भाष्टि-इ-> -हाः, -हान् इति शोधः द्र. (वैदु. अश्या. अन्वेषि^३, शांसा. (३, ३-४) यष्टि^३ इति, ये. वेष्टि^३ इति) ।

येन के१,४; क२,१,३; सुं १,२, १३; तै ३,१,१; ए ५,१; छां ५,११,६; वृ १,५, १५; खे ६, १; मै २,३; उ; ८; कौ २, ११; हं ११^३; ऋ २^{१०}; येपाम् प्र १, १५; वृ ४,४,२२; ऋ ३,१; वृजा ५,११; नाप ३, ८१; रा१ १;०; अन्न ४, ५२; पत्र ३,५; सार २३^५; ४; गी २, ३५^०; येसु प्र १, १५; सुं १, २, ७; मना २, १२, १३^{१०}; मै ४,२^०; सि ५,७; येसु-येसु राउ ५, २६; वै: सुं ३, २, १०; वृ २, १, ९; मै १,७; मैत्रे १,२; सार २५५: १२; यौ छां १,७,५.

यतर- > रे छां ८,८,४.
यतस(>): क२,१,९; तै २,४, १; छां ५,९,२^३; जा ४३^१; मैत्रे ६,३४; कौ ४,११; मना १,१३^०; पदं २; मवि ३^३; यतः-यतः छां ४,१७,९.
यति-

यति-(य^१>)थी- -प्पाम् वृ ६,२,२.
यत्र क १, २, २५; प्र ४, ११; सुं १, २, ५; ११; मां ५; तै १, ६, १; छां १,२, १; वृ १, २, ३; मै ५,७^३; मैत्रि ६, ७^३; कौ २, १४; यत्र-यत्र अना ३९^५; त्रिमा २, ११३.
यत्र-(स्य>)स्या- -स्या यो ३,७.
यथा के १, ३; क १, १, ६; प्र

२,४; सुं १,१,७^१; तै १,४,३^३; ऐ १,४; छां १,२,७; वृ १, ४, ७; खे २, १४; कौ १, ४; २, १२^१; सु १९^{१०}; नाप ८, ११^०; जाव ५, १३^०; योशि ४, १४^{१०}; छाग २४: १०^{१०}; यथा-यथा सुद ३; सार २३९: १५; सि ३,१३^३; ६,१०४^३; २७८^३.

यथा-कर्मन्- -सै क २, २, ७; वृ १, ५, २१; कौ १, २.
यथा-कल्प- -ल्पम् वृजा ३, ३४^०.
यथा-काम- -मम् प्र १, २; वृ २, १, १८^३; पित्र १, १६; ऋ ३, ३, ६०.
यथा-काम-चार- -रः छां ७, १, ५; २-३, २; ४-५, ३; ६-१४, २.

यथा-काम- -मः वृ ४, ४, ५.
यथा-कारिन्- -री वृ ४, ४, ५.
यथा-काल- -लम् सुं १, २, ५; महा २, ४३; ६, ४७.
यथाकालो(ल-उ)पपन्न- सेवा- -वा सार २४९: ११.
यथा-कण्ठ- -तु: छां ३, १४, १.
यथा-कर्म- -मम् सु १, ११; ऋवि ५६; योचू १२०; सं १, १, ६; वै २, ४; योशि १, १०१; ५, १; भ १, ६; सि ४, ३९; सु ११२; मेण मैत्रि ६, २६; ३१; शारी १; त्रिमा २, ४३.
यथा(या-श्वा)कर्म- -मः वृ

४, ३, ९.
यथा-क्षण- -गम् महा ४, ३९.

यथा(या-श्व)क्षर- -रम् १आ १^{१०}; २आ ३.
यथा(या-शा)गत- -तम् वज्र ५, ११६.

यथा-चारिन्- -री वृ ४, ४, ५.
यथा-जात-रूप-घर- -रः जा ६; नाप ३, ८६^३; -रा: या २, १^०.

यथा-ज्ञात- -तम् जावा ३; सि १, २.
यथा-तथ- -थम् त्रिमा २, ११६^०; महा ५, १^३; वरा २, ५७^३.

याथातथ्य- -थ्यम् योशि २, ३; -थ्येन सार २९०: १२; पित्र १, २.

याथातथ्य-तस(>:) ई ८.

यथा-देश- -भावः महा ४, ३९; तारा ८४: २.
यथा-दैवत- -तम् वृ १, ५, २२^०.

यथा(था-अ)धिकार- -यथाधिकार-वत्- -वान् शुभो ४२०: ३.
यथा-निकाय- -यम् धे ३, ७.
यथा(या-श्व)नुसासन- -नम् छां ८, १, ५.

a) अथवा. 'केन' इति शोधः द्र. (तु. निसा., अन्न., अथवा. संदि.) । b) सङ्ख 'तेन' इति अन्न. । c) 'पपाम्' इति SCHR. पाठे. (वैतु. वे. (NIA २, २३१)) । d) तैश्चा १०, १०, १ । e) 'येपाम्' इति अथवा. । f) श्र ३, २९, १० । g) तैश्चा १०, १, १ । h) 'भनः' इति अन्न. । i) उक्तिः प्र. उर्त्त. (या ५, २, ४१) । j) इति युगागमः उर्त्त. (पा ५, २, ४८; ५१) । k) 'यत्र तत्र' इति अन्न. । l) 'यद्' इति अन्न. । m) 'यदा' इति अथवा. । n) पा. नुदितः (तु. तु ४-६) । o) निसा. पा. १ 'यथा' (तु १) इत्येवं शोधः द्र. (तु. अथवा.) । p) पा. १ 'मय' इत्येवं शोधः द्र. । q) अथ. । r) वा. किति. द्र. । s) 'कण्ठोक्तविधिना' इति अथवा. । t) वस. । u) 'रः' इति पा. १ यनि. शोधः द्र. । v) 'रः' इति अथवा. । w) 'यथा सया' इति अथवा. संदि. । x) पा. १ यनि. शोधः द्र. । y) 'दे' इति JC. । z) पप. = यथाविध- इति कृत्वा विप. सतः उप. मलो. कस. ।

यथा-पूर्व^१- -वम्^२ मना १,
१४^३; त्रिविध, १२; सार २, २२;
७४; १०३; महा ४, २७; अध्या
४८; वरा ३, १७; सार २४९: ३.

यथा-प्राप्त^४- -से महा ४, ३८.
यथाप्राप्त-स्थिति^५- -ति:
वरा ४, २२.

यथाप्राप्ता(स-अ)नुभव-
यथाप्राप्तानुभव-
त्स(>): महा ६, १४.

यथा-बल^६- -लम्^७ गौ ४,
१००.

यथा-भाग^८- -गम्^९ गी १,
११.

यथा(धा-अ)भिमत्-ध्यान-
-नात् योस् १, ३९.

यथा(धा-अ)भिवान्छित-
ध्यान- -नात् शां १, ७, २७.

यथा-भूता(त-अर्थ^{१०})-
दर्शिन^{११}-

यथाभूतार्थदर्शिनी-
-नी अज १, ४८.

यथाभूतार्थदर्शि-स्व-
-स्वम् अज २, ३५^d.

यथा(धा-अ)पतन^{१२}- -नम्^{१३}
ऐ २, ३; कौ ३, ३^३; ४, १९.

यथा-योग^{१४}- -यम्^{१५}
तारा ८४ : ५.

यथा-योग^{१६}- -यति सार
२८४ : ६.

यथा(धा-अ)रव्य^{१७}- -व्यम्^{१८}
१अव २२.

यथा-रुचि^{१९}- -चि^{२०} त्रिना २,
११.

यथा(धा-अ)र्थ^{२१}-
यथार्थ-त्स(>): क.रु.३२

यथा-लब्धो(व्य-उ)रजी-

विन्- -वी नाप ५, १४.

यथा-लाम^{२२}- -अम्^{२३} आर
३; नाप ५, ४; १संन्या १, १;
कथु १, १.

यथा-वत् मैत्रि ४, ५; त्रिना
२, ६३; शां १, ४; महा २, १६;
१९; ३०; ३१; ५, १०९; अन्ति
१४; १६; १८; जाद ४, १२;
गोपू १८; २४; वरा ४, ११;
सु २, २, २; ५०; गी १८, १९.

यथावद्-उपचारिन्-
-री मैत्रि ६, ३०.

यथा-वस्तु-दर्शिन्-
यथावस्तुदर्शि-स्व-
-स्वम् अज ४, ५०.

यथा(धा-अ)वस्थित^{२४}-
-तम्^{२५} स्व ६१ : १.

यथावस्थित-ज्ञान- -नम्^{२६}
स्व ६१ : १; -नेन स्व ६१ : ५.

यथा-वि(धा>)य^{२७}- -द्यम्^{२८}
कौ १, २.

यथा-वि(धा>)य^{२९}- -द्यः
गौ २, १६.

यथा-विधान^{३०}- -नम्^{३१} छां
८, १५, १.

यथा-विधि^{३२}- -धि^{३३} बृजा
४, ४; नाप ४, ३८; रह ३५; सूता
६, १०; वज ६, १०.

यथा-विधि^{३४}- -धिः नाप
३, ८६.

यथा-व्यपदिष्टो(ह-उ)क्ति-
-क्तेः प्रसू १, ४, १४.

यथा-शक्ति^{३५}- -क्ति^{३६} १योत
३७; ३९; शां १, २; ७, १; १४^३;
४३; भव १, ३७; -त्तया १योत
११३^३; योच् ९५; विद्, २१५.

यथा-शब्द^{३७}- -शब्दम्^{३८} प्रसू

२, ४, २१.

यथा-शाल्म^{३९}- -श्लम्^{४०} महा
४, ३९; ५, ८८.

यथा(धा-अ)श्रय-भाव-
-वः प्रसू ३, ३, ६१.

यथा-श्रुत^{४१}- -तम्^{४२} क२, २, ७.
यथा-संकल्पित^{४३}- -तम्^{४४} प्र
३, १०.

यथा-संप्रदाय^{४५}- -यम्^{४६}
सिंहि ३८१ : १४.

यथा-संभव^{४७}-
यथासंभव-त्स(>):
बृजा ४, २७.

यथासंभव-सत्-सह-
-अम् महा ४, ३९.

यथा-सुख^{४८}- -स्वम्^{४९} मना २,
३६^३; नाप ४, ३८; महा ४, ३९;
१संन्या २, १२; ५५; अन्ति २;
सार २५० : १९.

यथा-स्थान^{५०}- -नम्^{५१} वृ ६,
४, ५; भ २, २.

यथा-स्थित^{५२}- -तः महा ४,
४१; -तम् अज ५, ११०; वरा
४, २१.

यथे(धा-इच्छा>)च्छ^{५३}-
-च्छम्^{५४} सार २७८ : ५.

यथे(धा-इ)च्छा- -च्छया कुं
२८.

यथे(धा-ए)व- -तम् छां ५,
१०, ५; वृ ६, ३, ६.

यथे(धा-ई)प्सित^{५५}- -तम्^{५६}
पै २, ४२; महा ४, ३७.

यथे(धा-ई)प्सित^{५७}- -तात्
शि ४, ५०; ५३.

यथे(धा-इ)ष्ट^{५८}- -ष्टम्^{५९} १योत
४९; १११; यो १, २४; शि ७,
१४^३.

a) अम. । b) वा. विवि. द्र. । c) श्र १०, १९०, ३ । d) *ताम्^{३७} इति अच्चा. । e) पू.प. *विवि.

इति वृत्ता तस्य च विप. सतः उप. क्य. उत्सं. [पा २, १, ५७ (द्र. गद्, टि. यथापिकार-)] । f) मस. । g) *क्ति.
इति निपा. । h) तैम्मा १०, ३०, १ । i) यग. उप. भाप. । j) पररूपम् (पा ६, १, ९५) । k) *ष्टः इति पा. ? यनि. शोषः द्र. ।

यथेष्ट-धारण- -गम् योत्
१९; -णात् १योत् ५०; शां १,
७,८^१.

१यथो(या-उ)क्त^b- -कम् क
१, १, १५; वउ ६, ३७; -केन
त्रिमा २, ११६.

यथोक्त-काल- -ले जा
६; नाप ३, ८६; मि १३; पा २, १.

यथोक्त-फल- -लम् शां
१, २.

यथोक्तफल-द- -दः
जाद २, १६.

यथोक्त(क-श्रु)र्षि-च्छ-
न्दो-दैवत- -तम् वउ ६, १४.

यथोक्त-विधि- -धिना
त्रिमा २, १४.

यथोक्त-वेष- -पः ३प्र
३५; १६.

२यथो(या-उ)क्त^c- -कः नाप
३, ५६.

यथो(या-उ)चित^d- -तम्^d
नाप २.

यथोचिता(त-था)तिथ्य-
पूर्वक- -कम् नाप १.

यथो(या-उ)पदिष्ट^b- -ष्टम्^d
वउ ६, १०; ४६.

यथो(या-उ)पवृत्ति^e- -त्ति^d
शा ६^१.

यथो(या-उ)परब्र- -घानुर्वे-
वन्-शैक्ष-चर्य- -र्यम् भाष ४.

यथो(या-उ)पयोग-शुभ-
पा-पूर्वक- -कम्^d नाप २.

यदा क २, ३, १०; प्र २, १०; मुं
१, २, २; तै २, ७, १^१; ऐ ४, १;
छां १, १, ६; वृ १, ३, १२-१६;

शे १, ९; गौ १, १६; मैत्रि २, ६;
मैत्रे १, ४, ७^१; गर्भ २^१; १योत्
५३^१; यदा-यदा योशि १, ३६;
गौ ४, ७.

यद्-यद् ई १; के १, २; ४^१; क १, १,
५; ९; २२; प्र शां^१; १, ५; ६^१;
मुं शां^१; १, १, ४; ६; मां शां^१;
१; तै २, ६-७, १; ऐ ३, ३-५;
१०^१; वृ १, १, १^१; कौ १, २५^१;
६५^१; ३, १५^१; व २^१; महा ५,
१४^१; गौ ५, २१^१; यत्-यत्

छां ६, ९, ३; वृ १, २, ५; महा ३,
१७; १संवा २, ५९; योशि १,
३१; भव १, ३९; २, २५.

यश्-चित्त- -त्तः प्र ३, १०; मै
४, ४, ३; मैत्रि ६, ३४; मैत्रे १,
४, ५; शा ३.

यश्-छ्(छा)> - -ञः गौ
१७, ३.

यञ्-जप- -पात् सूता १, ३.

यञ्-ज्ञान- -नेन मं ३, १, २.

यत्-कर(र-ध)म- -मत् वउ
४, ४१.

यत्-काम- -मः छां १, ३, १२^१;
सुपु १, १; -^१माः मना २, ५४;
पा ६, ८.

यत्-किं-चिद्-
यत्किंचिद्-इदम्-आत्मक-
-कः ते ४, ७९.

यत्किंचिद्-धर्म- -र्माः सार
२८७ : १५.

यत्-ऋतु- -तुः वृ ४, ४, ५.

यत्-पर- -रम् २शिशं १७;
-रत् २शिशं १७^१.

यत्-परिमह- -हः महा २, ९.

यत्-पादा(द-ध)म्भोरुह-
द्वन्द्व- -द्वम् स १६.

यत्-प्रकाश(श-ए)क-वन्ध-
(न>)ना- -ना वरा २, ९.

यत्-प्रभाष- -वः गौ १३, ३.

यत्-संकोच-विकाल-
-साम्याम् महा २, १०.

यत्-स्वरूप-ज्ञान-
यस्वरूपज्ञानि- -निनः
त्रिवि ८, १४.

यद्-भ्रम- -मे तुले ७१ : ५.

यद्-अनुव- -तः छां १, ४, ५;
कौ २, १४.

यद्-अर्थ- -र्थम् महा ४, ५११;
१३१.

यद्-उ(क>)का- -का यो २, ८.

यद्-उपासना- -नया सार १, १.

यद्-उपासना-मात्र- -त्रात्
सार २८० : १३.

यद्-दृष्टा- -च्छया सार २७९;
१; २९१ : २; १५; गौ २, ३२;
-च्छा शे १, २; नाप ९, १.

यद्-दृष्टक- -कः गौ २,
३७; पृष्ठ^१; नाप ३, ८६; ६, ३८;
यद्-दृष्टा-कथा-सेवा- -वा
सार २७९ : २.

यद्-दृष्टा-लाभ-
यद्दृष्टालाभ-वत्(>);
जाद २, ५.

यद्दृष्टालाभ-संतुष्ट- -ष्टः
नाप ३, ८६; गौ ४, २२.

यद्दृष्टालाभ-संतुष्टि^१-
-ष्टिः शां १, २.

यद्-गोत्र- -त्रः छां ४, ४, २^१; ४^१.
यद्-दीप्ति- -प्या मित्र ३, ५.

- a) °गम् इति अच्चा. । b) अस्. । c) कस्. । d) वा. किवि. द. । e) °सिम् इति निसा. यनि. शोधः
द्र. (सु. अच्चा.) । f) 'यथा' इति अच्चा. । g) 'यथा' इति अच्चा. । h) 'यथा' इति निसा. । i) छ १, ८९, ८ ।
j) 'यः' इति शांथा ३, २ । k) 'तद्' इति शांथा ३, ६ । l) 'यः' इति शांथा ५, १ । m) सङ्घ 'वत्' इति निसा. ।
n) सङ्घ निसा. 'वत्' इति शोधः द्र. । o) 'यः' इति SCHR. पाठे. [वितु. वे. (NIA २, २३१)] । p) छ १०,
१२१, १० । q) °थेम् इति अच्चा. । r) 'नवपदकारः' इति अच्चा. । s) °भनुत् इति अच्चा. ।

यद्-ध्यान-नात् सूता १, ३१.
यद्-वत् गौ ३, ४१; मैत्रि ६,
१०^b; २६; ३१; शां १, ७, २१;
योशि १, ५; १२५; ४, २; १३;
१अव ७; सौ २, १४; शि ५,
४२; शु २८; पित्र ६, ६; गी २,
७०.

यद्-विकार-

यद्विकारिन्-रि गी १३, ३.

यद्-विज्ञान-नात् महा २, ३७.

यद्-मध्य-ध्ये लु १२^c; तुल
७१: ४.

यद्-मन्त्रे(न्त्र-ई)क्षित-लान्छि-
ता(त-आ)भ^d-भम् व
४५६: १५.

यद्-माया-यया मैत्रे २, २५.

यद्-मूल-लम् ते १, २७; ले
तुल ७१: ४.

या^e-

या-दग्-दक् गी १३, ३; दशम्
भव ४, ८.

या-दश-दश: सी ३३; दशा:
सार २३८: १४; २४६: ४.

या-वत्-वत् क १, १, २३; छां
१, ९, ३; वृ १, ४, १७; गौ ४, ५५;
५६; मैत्रि ६, ३४; मैत्रे २, १२;

कौ २, ५^f; अना ३; द१५; त्रिवि
३, ६^f; शि १, ३४; २, २; २०^f;

३, ४५^f; ६, ९; ११; २४; ४४;
४६; ४७; ४९; ७७; ८२; ८६;

९३; १९८; २०१; २२६; २२७;
२४२; २४६^f; ४४६५: ११^f;

वज ३, २६; ३९; ५६; -वत्-वत्
अक्ष १, ४४; -वत्: इ १३: ३;

-वन्त: वृ ३, ९, १; वृजा ७, ४;

त्रिमा २, ११८^b; शि ३, १४;

-वन्ति मैत्रि ६; १३; कृ २२: इ

१३: ८; नाड ३, १७; -वान् छां

८, १, ३; वृ १, ३, ४; ६, ४, ३; गी

२, ४६; १८, ५५.

यावती-ती वृ १, ५,

११; ३, २, २; महा २, ५३; शि

४, ४४; गा ४; २०; -ती: क १,

१, १५; -त्य: मैत्रि ६, १४; ध्या

४२१^f.

यावजू-जीवम्^g गह २५.

यावत्-कैसर-संख्यान-

-नम् शि ४, ३६.

यावत्-क्षण-णात् ते १, ३८.

यावत्-तत्-पत्र-कुमुम-

कन्द-मूल-फल-लानि शि ७,

९४.

यावत्-तत्-पत्र-संख्यान-

-नम् शि ६, ४६.

यावत्-तामूल-पत्र-त्राणि

शि ६, ४७; ४९.

यावत्-संख्या-ख्या शि

६, २५७.

यावत्-संपात^h-तम् छां

५, १०, ५.

यावत्-स्थावर-जङ्गमⁱ-

-मात् अक्ष ५, १०६.

यावद्-अधिकार^j-रम्^k

म् ३, ३, २२.

यावद्-आत्म-भाविन्-

यावदात्मभाविन्-त्व-

-त्वात् म् २, ३, ३०.

यावद्-आयुष^l-यम् छां

५, ९, २; ८, १५, १; शां ७.

यावद्-देह-भाविन्-

यावद्देहभाविन्-त्व-

-त्वात् म् ४, २, १९.

यावद्-यल^m-लम् ध्या २३.

यदा यद्-द.

यदिⁿ के २, १; क १, १, २४; प्र १,

२; तै १, ११, ३; ऐ ३, ११^o; छां

२, २, २, ३; वृ १, २, ५; मै ४, ३^m;

त्रवि १६ⁿ; अक्ष २, २१^o; कालि

४०२: ११^p.

यद्य(दि-आ)पि छां ४, १५, १; ५, २,

३; २४, ४; ७, ५, २; १५, ३; ८,

१०, १; ३; वृ १, ५, १५.

यदु^q-

याद्व^r-व गी ११, ४१.

यद्यद्युद्युवेह^s मना २, ११.

यन्तु-यन्त्र-य^tयच्छ, यम्(यमने)द.

यम्^u कौ १, ६.

१-३यम-, यमयत्-, यमल-

य^vयच्छ, यम्(यमने)द.

यमश-यमश^w व ४२७: १७.

यमिन्-य^xयच्छ, यम्(यमने)द.

यमुना^y-ना सार २२१: १७;

२५८: २१; २६७: २१; नाया:

गोड २; सार २२५: १०; २५५:

१; २५८: २३; नायाम् सार

२६०: ४; -ने मना १, १३१^z.

a) °द्वया° इति पा.। यनि. शोध: द.। b) 'यद् वा' इति सात.। c) 'मर्ह्य' इति आन., 'यन्मर्म' इति अख्या.। d) षस. > षस.। उप. आ/मा > मा-भ- इति भाष. द.। e) तु. टि. तद्-> ता-। f) वा. किवि. द.। g) तु. सरष. टि. अक्ष-> अक्ष:। h) 'तावन्तम्' इति निशा., अख्या. संदि.। i) °न्य: इति निशा., अख्या. पा.। यनि. शोध: द.। j) वा ३, ४, ३०। k) अक्ष.। l) वैप १ यश.। m) 'यत्' इति अख्या.। n) 'यद्' इति आन.। o) पा.। यद्-> यद् इति शोध: द.। p) 'दिवा' इति तान्नि.। q) द्यु.। =दुषविशेष-। r) निशा. पा.। [तु. भा. 'यत् (=यदि) युषे युव (=किप.) इह', सा. 'यत् (=यदि) युषे हु (<युषे (=किप.) ह' (तु. तैमा १०, ९, १)] 'यदि, उठ, इह, वा, इह' इत्येवं शोध: द.। s) 'सत्यम्' इत्यस्याऽन्तिमोऽवयव:। t) °शक्ष > क्षमि > क्षमय-क्षमय' इत्यस्य शुभ्रपाठां विरयांस:। u) म्र १०, ७५, ५।

यमुना-केलि-रसिक- -काभ्याम्
 सार २४७ : २२.
 यमुना-जल-कहोल-विहारा-
 (र-आ)मन्- -मने सार
 २७७ : ४.
 यमुना(ना-अ)मृतौ(त-उ)दक- -कैः
 सार २५८ : २०.
 यंभं व ४२७ : १८.
 यव^४ -वः वृ ५, ६, १; -वात् वॉ ३,
 १४, ३; -वैः भ २, २५; शि २, २३.
 यव-पर्वत- -तम् शि ६, ६८.
 यव-मात्रक- -कम् शि ६, १०१.
 यव-मात्र-विनिर्गो(त>)वा- -ताम्
 कुं १८१°.
 यवन्तिका^{१४} -काः सार २६३ : १४.
 यशस्^५ -शः तै १, ३, १; ४, ३; ३,
 १०, ३; छां ३, १, ३; २-५, २;
 १३, २; ८, १४, १; वृ १, २, ६;
 ४, ११; २, २, ३; ६, ४, ६-८; खे
 ४, १६७; मना १, २७; २,
 १५७; कौ २, ६; १५; नाप ४,
 ३८; महा १, १; १संन्या २, ६;
 त्रिा ३, ३६; ४, ८; सार २२२ :
 १६; १७; २१; २२४ : १७;
 २२७; २०; २५३; १४; २५९ :
 ३; २६२ : १८; २७४ : १४; सु
 ६२७; वउ ६, ४९; गौ १०, ५;
 ११, ३३; -शसः मैत्रि ६, ३५;
 -वासि छां ३, १८, ३-६; वृ ५,
 १४, ३; ६, ४, ७; ८; २८; कौ १,
 ३; मा ९; अह २४७; -शसाम्
 छां ८, १४, १.

✓यशस्, यशस्यन्ते तारा ८४ : १४.
 यशस्-विन्- -त्रिनी वृ ६, ४, ८;
 -थी छां ३, १३, २; सु २९५ : ४.
 यशस्विनी- -नीम् वृ ६,
 ४, ६.
 यशस्विनी^{११} -नी ध्या
 ५३; योच् १७; २०; शां १, ४;
 भा १३; जाद ४, ७; १५; १६;
 १९; वरा ५, २४; -न्याः जाद
 ४, १६; २७.
 यशस्विनी-कुह-
 मध्य- -ध्ये शां १, ४.
 यशस्वित-तम- -मः, -मम् कौ
 २, ६.
 यशो(व>)दा^१ -दा कृ ३; सार
 २५२ : १०; -दायाः सार २६२ : ८.
 यशोदा(दा-आद्य>)छा- -याः
 सार २५० : २२; २८० : १.
 यशो(शस्-अ)र्थ- -र्थम् १संन्या २,
 ८२.
 यशो-वत्- -वान् ग १८.
 यष्टय- ✓यञ् ड.
 यष्टि^{१६} -ष्टिम्, -ष्टे. शि ६, १३४;
 -ष्टया वृ ६, ४, ७; कौ ४, १८; व १.
 याहीरु- -कैः महा २, २१.
 यष्टि(क>)का- -का कृ ८.
 यष्टय(ष्टि-अ)र्थ- -र्थम् शि ६, १५०.
 ✓यस्(यजने), जयासिपम् मना १,
 ४७.
 यस्क^{१०} -
 यास्कं - स्कात् वृ २, ६, ३; ४, ६, ३.
 ✓या, याति क १, २, २१; छा ७, १५, १;

वृ ४, ३, ३५; खे ६, ४; गौ ३,
 ३२; मे ४, ४, ७; मैत्रि ६, १७;
 वृ ४; कै १, १; हं १८; योच्
 ११४; यान्ति मैत्रि ६, ३०;
 अशि ५, १५; मन्त्रि १७; ते
 १, ४६; नाद ५१; योच् ६९;
 त्रिवि ५, ७; राष्ट्र १, २; पै ३,
 १; महा ४, ३; शि ६, १८४;
 यासि अत् १५; यामि महा
 ३, ९; यालु अल ५, ३८;
 यान्तु महा ४, ९७; अयाम् अला
 २; यायात् वृ ४, ३, ३५.
 यथौ वृजा ६, ४; सु २, २०; सार
 २८६ : १४; यथुः कौ २, १४;
 १५; मन्त्रि १८; चू १८;
 यास्यति शु १, ४; यास्यति सु
 १, १, २७; गौ २, ३५; ४, ३५;
 यास्यामः गोउ २; ४.
 यात्- याति महा ५, ५.
 यात्, ता- -तम् महा ४, ८९; १३४;
 ५, १४७; -ता(इतः) महा ३,
 १९; -ताः महा ५, ६१; वरा ३,
 २३; -ने यो १, ४३; शां १, ७,
 २३; महा ६, ३; -तौ महा ६,
 ४७; यो १, ४४.
 यात्-याम- -मः सुद्र ४; -मम्
 भव ४, १४; २३ ३३ : ११; गौ
 १७, १०.
 याता(त-आ)यात्- -तः (तित्म्)
 योच् ११; ११३.
 याते(त-इ)न्दु-चक्र- -क्रम् यो
 १, ७१.

अ) 'भय->-यम्' इत्यस्य गृह्यणार्थो विपर्यासः । b) वैप १ यद. । c) 'त्रे वि' इति निता. यनि.
 शोधः द. (तु. अख्या.) । d) व्यु. ? । e) मा ३२. ३ । f) तैआ १०, १, २ । g) तैआ १०, १४, १ । h) तैआ १, २७, ३ ।
 i) =नाडीविशेष- । j) 'स्वती इति निता., अख्या., 'शोवती इति तान्त्रि. च यनि. शोधः द. । k) व्यु ? =लगुड- ।
 l) तु. वैप. १, ४५९d । m) इति बुद्धिनिषेधवाच्यः उरसं. (पा ७, २, ३) । विशेषः वैप १ यद. । n) अ १, १८, ६ ।
 o) व्यु ? =गोत्रप्रवर्तक-श्रृणुविशेष- । p) 'उपैति' इति अख्या. । q) 'मि' इति निता. यनि. शोधः द. (तु. अख्या.) ।
 r) 'याति' इति अख्या. । s) 'याति' इति पा. १ यनि. शोधः द. । t) 'जय' इति अख्या., 'हंसुः' इति आन. ।
 u) निता. पा. ? 'यदि-उ' इति शोधः द. (तु. आन., अख्या., शांआ ४, १५) । v) पा १ यनि. शोधः द. । w) वस. ।
 पूर्वत्र 'पित्तम्' इत्यस्य वि. द. ।

यात्रा¹¹ -त्रा शि६, १४४¹; -त्राम्
शि ६, १७७.
यात्रा-मात्र -त्रम् शा १८.
यात्र¹² -नम् नाप ३, ७१; १संन्या
२, ८७; -नैः छां ८, १२, ३; शि
६, १८२.
यात्ना(न-श्वा)दि-रूढं -ठः नाप
५, १.
रयाम^० -मम् ब्रवि ५५; -मे शि
६, १३१; -मे-मे वरा ५, ४६.
याम-मात्र -त्रम् १यौत ७२;
१२६; त्रिवा २, १४८.
यामि(न>)नी¹³ -
यामिनी-नाथ¹⁴ -
यामिनीनाथ-लेखा-
(खा-अ)लंकृत-कृत(त>)-
ला-लाम् सार ३, ६.
यायावर¹⁵ -राः आश्र २^१.
या- यद्- द.
यां^१ आथ ३९८: १९; व ४४५: ५.
याग- √यज् द.
√याच्, याचते पित्र ३, ५; याचे वरा
१, १; याचेत सुवा १२; याचेत्
की २, १; २.
याचत् -चतः ५^०कौ २, १; २; सु
१, १, ४६.
याचमान-नः १संन्या २, ९४; -नेषु
पित्र ३, ५.
याचित-तः मना १, १२५^१; -तम्
शा १९.
याचिता(त-अ)याचि(त>)ता-
-तम्याम् १संन्या २, ७१.
याचिता(त-आ)हार-रम् नाप
३, ८३.
याज-याजक-याजयत्-√याजि,

याजित-, याजुप-, याजुपी-,
याज्या-, याजवल्क्य-,
याजिक- √यज् दः
यात्-, यात- √या द.
यातना- √यत्(निकारे) द.
यातय^१ प्रा १, ३.
√याति √यत्(निकारे) द.
यातु^० -
यातु-घान^१ -नाः दे १०; इ १६:
५; -नानाम् नी २, २२^१.
याधातथ्य- यद्- द.
यादव- यद्- द.
यादस्^१ -दसाम् गी १०, २९.
यादृच्छिक-, यादृग्-, यादृश-
यद्- द.
श्याम- √यच्छ्, यम्(यमने) द.
श्याम- √या द.
यामि¹⁶ ५^० व ४४०: २२; ४४६: ५;
४५१: १; ४५४: ८.
यामिनी- √या द.
यामी-, १-२यान्य- √यच्छ्, यम्
(यमने) द.
यावक¹⁷ -
यावक-रह-रञ्जि(त>)ता- -ता
सार २४५: ८.
यावक-रस-विभाविता(त-अ)-
हृगुली-लीभ्याम् सार २४४:
२२.
यावत्- यद्- द.
याष्टिक- यष्टि- द.
यास्क- यस्क- द.
√यु(मिधणे)
युत्, ता- -तः राप् ४, ५५; ६३; सार
२४५: ११; भव ३, २४; -तम्
यो १, ६९; गोउ४७; योरा १७;

गोच ६२: ६; सार २३६: १२;
-ताः राप् १, ९; सार २८७: १;
-ते गौ ३, ५.
युव(, > यु)न्^१ -युवा तै२, ८, १; वृप्
५, १०; घ्या ७४; योच् ४७;
१संन्या २, ९३; अक्ष २, ३०; यो
१, ७३; रुजा ३, १; अरु १७५^१;
भव १, ४१; युवानम् वृप् २,
८५^१; यूनः या २, १७; यूनम्
रार ४, १०.
युवति, ती^१ -तिः वउ३, ६;
-तीं शां १, ६; गार ४०६: १९;
-तीम् सुमु २.
यौवन-नम् मैत्रि ६, १०; ते
४, २९; गी २, १३; -ने छां ४,
४, २; ४; महा ६, २३; सार
२४८: ३.
यौवन-वृत्त- -तेषु अक्ष २,
३०.
यौवन-श्री- -श्रीः भव १,
२१.
यौवन-संपत्ति-पूर्णे>-
र्णा- -र्णाः सार २२२: ५.
यौवन-स्थ- -स्थाः शि ७,
१२२.
यौवना(न-अ)मम्^१ -मने
सार २५१: १८.
यौवना(न-अ)व(स्थ>)-
स्था- -स्था अद्वै ६^१.
यौवनो(न-उ)म(त>)त्ता-
-त्ताम् रा ४२४: २१.
√यु^१(धर्षणे), ५^०युयोधि ई १८: ५
५, १५, १.
युक्त-, युक्ति-, युक्त्वा, १-४युग-,
युगल-, युग्म- √युज् द.

a) वृ. सस्थ. टि. महाविमान-> -ने। b) =शकट-। c) वैपश् यद्। d) =रात्रि-। e) =चन्द्र-।
f) पा ३, २, १७६। g) =बीजमन्त्रविरोध-। h) 'चि' इति आन., अघ्या., चांशा ४, १; २। i) तैसा १०, १, १२।
j) पा.१ 'या ते' इति पदद्वयपरः शोधः द. (व. वै १३, १३, १०; आन.)। k) मा १३, ७। l) व्यु.१ =जलजन्तु-।
m) भा.१ =उडुप (वृ. वैपश् यरथा.)। n) श्र १, २४, ११। o) व्यु.१। p) तैसा १, २७, २। q) श्र २, ३३, ११।
r) पा ४, १, ७७। s) श्र १, १८९, १।

√युज् (बधा.) > योजि, युजे श्वे २, ५९.

युज्यस्व गी २, ३८; ५०.

युज्जति के १, १; मैत्रि ६, २५;

सुद्र ३; युज्जते श्वे २, ४९^०;

मैत्रि ६, २५; २प्र ३३^१; १४९^०;

अयुज्जत सार २४९: १२; युज्जित

गी १, २५; मै ५, ३; मैत्रि ६,

३; २१; मगा २, ७९^०; त्रिप्रा २,

१२८; भव ३, २४; गी ६, १०;

युज्ज्यात् गी ६, १२.

युज्जते श्वे ५, १०^०; गी ३, १४;

२७; २८; ४, २०; महा ३, ११^१;

पाशु २, २१; २प्र ३३: १३; भव

२, २५; यु ६५; गी १०, ७; १७,

२६^१; युज्यन्ते वृ ५, १३, २^१;

कौ २, ६; सार २७३: २०; २७९:

९; अयुज्यन्त सार २४९: ३.

योजयति महा ३, २५; सु २, २,

४; योजयेत् गी ३, ३६; अक्ष २;

वृजा ४, १२; वृ ६, ५; ७, १५^१;

रार २, ५८; १०५; ५, १४; जाद

८, ९; वरा १, ७; कालि ४०३:

१५; वी ४२२: ३.

योज्यते महा ४, १०३; सार

२३९: १८; अयोज्यन्त सार

२३९: २०.

युक्त, क्त- क्त: के १, १; प्र ३, १०;

छां ८, १२, ३^१; श्वे २, १५; तेषु, ६१;

मवि १७; नाप ५, ५; ३१, ६, ४;

२६; राष्ट्र ३, ३६; ६३; योशि १,

१४१; ४, १; जाद ३, १३; सूता

२, १५; शि ६, १२७; भव ४,

१; गी २, ३९; ६१; ३, २६; ४,

१८^०; ५, ८; १२; २३; ६, ८; १४;

१८; ७, २२; ८, १०; १८, ५१;

-क्तम् गी २, १०; ४, ३४; वृजा

४, ९; राष्ट्र ४, २८; महा ५,

१६८^१; अक्ष १, ५६; ४, १७; ग

७^१; सु २, २, १६; ३४^१; सार

२३०: ११; शि ६, १३६; १३८:

-क्तम्-क्तम् योचू ११९^१; शां १,

७, ७^१; -क्तस्व मैत्रि ६, २८; योशि

२, १९; -क्ता राष्ट्र ४, ५९; त्रिता

३, ११; वृ ३, १६; -क्ता: ती १,

११, ४^१; श्वे ४, १५; वृ २, ५, १९;

वृजा ५, १४; ब्रवि ६७; ६८; शि

४, ७; भव ५, २२; -क्ते गी १,

१४; -केन क १, ३, ६; श्वे २, २९^१;

योचू ११६; -क्तै: गी १७, १७.

युक्त-प्रायन्- -वा वृषू २, ९९^१.

युक्त-चातुर्मास्य-व्रत-नियम-

-म: पप ४१९: १६.

युक्त-चेतस्- -तस: गी ७, ३०.

युक्त-चे(श)> -ष्टस्य गी ६,

१७.

युक्त-तम- -म: गी ६, ४७; -मा:

गी १२, २.

युक्त-स्वभा(प्र-अ)वबोध-

-धस्य गी ६, १७.

युक्ता(क-आ)रमन्- -रमा गी ७,

१८; -रमान: सुं ३, २, ५; म २,

१४.

युक्ता(क-आ)हार-विहार-

-रस्य गी ६, १७.

युक्ति- -क्तय: सु २, २, ४५; -क्तिभि:

योशि १, ६१; -क्तिम् अक्ष ४,

९०; सु २, २, ४३; -क्तिषु सु २,

२, ४६; -क्ते: वसू २, १, १८;

-क्त्या महा ६, ९; अक्ष ४, ८७;

५, ५०; अध्या ४; ३३.

युक्ति-कल्पित- -क्तै: अक्ष ४, ४४.

युक्ति-तस(>) सांस् १, ५९.

युक्ति-दर्शन- -नात् गी ४, २५.

युक्ति-युक्त- -क्तम् गी ३, २३.

युक्त्वा गी ९, ३४.

युक्तवाच श्वे २, ३९^०.

१युग^०-

युग-वत्(ईदु)^०- -वत्^० गी ४,

१६; यो २, ५; ३९^१; शि ७, ७१;

सांका ३०; गी ११, १२.

योगपद्य- -धम् वसू २,

२, २१.

युगपज्-त्रायमान- -नयो:

सांस् १, ३८.

युगपद्-उद्विता(त-अ)नन्त-

कोटि-रवि-प्रकाश- -वा: त्रिवि

७, १४.

२युग^०- -गे वृजा ४, २१.

युग-मात्रा(त्रा-अ)बलीकिन्-

-की शा १८^१.

युग-ल^०- -लम् गो ५९^१.

३युग^०- -गम् द्वाग २५: २०.

४युग^०- -गा: शु २१; -गानि पाशु

१, ६; सं १५; शि ६, २६; भव

१, ५७; -गे-गे सं ११; गी ४, ८.

युग-कोटि-शत- -तम् शि ६,

१९९.

युग-संधि-काल- -ले सं १०;

१३

युग-सहस्रा(प्र-अन्त)>-

न्ता- -न्ताम् गी ८, १७.

a) श्र १०, १३, १। b) श्र ५, ८, १^१। c) 'युज्यते' इति गोमा १, १, २२। d) तैत्रा १०, ६३, १।

e) 'रक्षते' इति आन.। f) 'भीयते' इति SCHR. पाठे. (वितु. वे. (NIA २, २११))। g) 'भोक्त' इति SCHR. पाठे. (वितु. वे. (NIA २, २३१))। h) वृ. सख. टि दुःख->-स्यम्। i) 'रुद्धम्' इति निमा.। j) °क्तः इति निसा. संदि.। k) मा ११, २। l) श्र ३, ४, १। m) मा ११, ३। n) भाप. =साहचर्य-। षक् प्र. उर्यं. (पा ३, १८)। o) तृप्त. उप. भाप. (वितु. पाप. अख्य. इति)। p) वा. किति. द.। q) धा. योगे श्तिः =युगम-। r) °गम् शारमा इति अख्या. संदि.। s) स्वायं लः प्र.। t) 'यु' इति आन.। u) धा. अर्थः =योक्त्र-। v) धा. अर्थः =दीर्घकालात्मक-।

युगा(ग-अ)नुवतिन्-तिनः
 गोज ३४.
 युगम-न्माः गर्भ ३.
 युगम-कलसि-प्या नाप४, ३८.
 युगम-स्तन-पदा(द-अ)न्त-
 न्तम् सुमु ६.
 युज्-युजा व ४५२:२२५^b; ४६०:
 ३५^c; २०५^d.
 युञ्जव-ञनः गी ६, १९; -ञन्
 योशि ५, ५२^a; ५४^b; यो २, १६;
 गी ६, १५; २८; ७, १.
 युञ्जान-नः श्वे २, १५^c; -नस्य
 त्रिवा २, ११६^d; १४५^e.
 योक्त्व-व्यः गी ६, २३.
 योक्त्र-वत्रम् शि ६, २७६.
 योय-गः रापू ४, २; योशि १,
 ६८; ६९; ११६; रुह १११; वरा
 ५, ४५; त्रि २, ३; सां २, ९;
 -नम् श्वे ६, ३; सार २४१:२०;
 -गाः त्रि २; -गाव् योशि १,
 १३७; त्रिता १, ४२; ४५; २प्र
 ३६; १३; नो २प्र ३५: १७५^b;
 पो ६; -नोन मुद्र २.
 योग-क्षेम-मः तै ३, १०, २;
 -मम् गी २, २२; -माव् क १, २, ३.
 योगक्षेम-कल-लानि सार
 २७८: ८.
 योग-तस्(>:) वरा २, ७५; सौ
 २, १४.
 योय-गः क २, ३, ११; तै २,
 ४, १; मैदि १, ८; २५; ५^a; २७;
 २८; अना ६; २४; त्रिवि ४४;
 १योत १५; १९; २५; नाप ४,
 १२; २४; त्रिवा २, १९; २३; शां
 १, ७, २४^a; महा ५, ४२; योशि

१, १३; ५२^b; यो २, १८; वरा
 ५, १०; ४०^c; सौ २, १^d; योरा
 २; इ ११: १७; १कौल २: ५;
 ३कौल ३; भव ३, १२; १३; योस्
 १, २; त्रस् २, १, ३; गी २, ४८;
 ५०; ४, २, ३; ६, १६; १७; २३;
 ३३; ३६; -गम् क २, ३, ११; त्रिवि
 ७; गर्भे ४; अना २; च्चु १२; त्रिवि
 ५८; १योत १५; १८; २२; नाप
 ३, ८०; अता ८; मं १, ३, १; शां
 १, ५; योशि १, १४; ६३; ६६;
 ५, १; अन्न ३, १; अलि ३; जाद
 १, ३; ४; वरा ५, २; ३९^k;
 ७५; सौ २, १२; निरु १, २०;
 त्रि ५, २९; ७, १०३; अवि ७;
 गी २, ५३; ४, १; ४२; ५, १;
 ६, २; ३; १२; १९; ७, १; ९,
 ५; १०, ७; १८; ११, ८; १८, ७५;
 -नस्य १योत १२२; योशि १,
 १०५; यो २, १; गी ६, ४४; -गाः
 वरा ५, १०; सार २८२: १८.
 -गाव् त्रिवा २, १९; भव ३, ११;
 योशि १, ५३^a; ५५^b; ६५; ६७^c;
 १२३; जाद ६, ३८; सौ २, १;
 शि १, ३२; हे ३; गी ६, ३७;
 -नानाम् सार २८२: १९; -गाय
 गी २, ५०; नो श्वे २, ११; त्रिवा
 २, २७; गी २, ३९; -नोन त्रिवि
 ५६; त्रिवा २, ५५; निर्वा २९८:
 २; योशि १, २५; २६; ५१; ७९;
 सौ २, १^d; १२; सुता १, १९; गी
 १०, ७; १२, ६; १३, २४; १८,
 ३३; नो: सुवा २; त्रिवा २, २७;
 अन्न ४, ५; वरा ४, ३५; गु ३७.
 योय-ग-गाव् सार २७५: २०.

ययोग-गम्, गै: गी ५, ५;
 ययोग-
 १योगिन्-०गिन् गी १०, १७.
 योगे(ग-ई)श-शाय सार
 २७५: २०.
 योगे(ग-ई)श्वर-र: गी ११,
 ४; १८, ७८; -रात् गी १८, ७५.
 ययोग-
 योग-वादिन्-दिनाम् अन्न
 ३, २०.
 योग-कल्प-तरु-रवे त्रिवि ७,
 ४३.
 योगकल्पतरु-वन-नम्
 सि १, १३.
 योग-काल-ले शां १, ४; -लेन
 त्रिवा २, ६५.
 योग-गुण-णे श्वे २, १२.
 योग-चतुष्टय-यम् योशि १,
 १३८.
 योग-चार-रेण नाद १९.
 योग-चूडा-मणि-गिम्
 योष् १.
 योग-नि(हा)>ङ्-ङ्-हः सृ ३.
 योग-ञ्ज-ञ्जः अता १४; -ञ्जैः
 जाद ४, ५.
 योग-ज्ञान-ने त्रिवा २, २१.
 योगज्ञान-पर-रः त्रिवा २,
 २०.
 योग-तत्त्व-स्वम् १योत
 १५^a; ३; २योत १, १५^b;
 -नवस्य यो १, ६१.
 योग-द-दम् शि ५, ११.
 योग-धातणा-गाम् गी ८, १२.
 योग-धी(धी-इ)रा(रा-अ)-
 न्त-न्तै: त्रिवि ७, ४९.

a) पू. = बीजाक्षर - । b) श्र १०, ८३, १ । c) श्र १०, ८३, ३ । d) श्र १०, ८४, ४ । e) मां ११, १ ।
 f) °नञ् इति अच्चा. संटि. । g) = भवप. । h) 'संयोगः' इति गोत्रा १, १, २७ । i) वैतु. राती. 'सम्यक्' इत्यनेन
 भेद्यपभिर्युः । j) °गवरः इति अच्चा. । k) 'योगी' इति अच्चा. । l) = योग-मूर्ति - । m) = योगाद्भूत-तत्साधन-
 प्रचार - (वैतु. शं. = योगिन् - इति) । n) = स्वतःसिद्ध-योग - । o) = योगशास्त्र - । p) = तदास्त्वोपनिषद्विरोध - ।
 q) स्वयं. ? । r) तम. > क्त. > घत्. ।

योग-ध्यान- -नम् व्रवि ५९.
 योग-न(न्द>)न्दा^{१०}- न्दा
 राधा १,२४.
 योग-निद्रा- -द्रा शां १,७,१८.
 योगनिद्रा-परायण- -णम्
 नाड १,२४.
 योग-निर्मल-धा(रा>)र-
 -रेण छु १८^०.
 योग-नि(ष्टा>)ष्ट- -ष्टा: १योत
 ७९; अता १४; योशि ६,६४.
 योग-पटा(ट्ट-अ)भिराम- -म:
 द ८.
 योग-पटा(ट्ट-अ)भियुक्त- -क्त:
 नाप ४,३८; १संन्या २,१२.
 योग-पथ- -थे घ्या ३८^०.
 योग-परायण- -ण: घ्या ७२;
 योचू ४२.
 योग-परिक्षेप्त- -मम् शि ७,
 ११७.
 योग-पीठ- -ठेषु राधा २,१.
 योग-प्रकाशक- -कम् त्रिना २,
 २१.
 योग-प्रवृत्ति- -त्तिम् श्वे २,१३.
 योग-बल- -लेन योशि १,४५;
 गी ८,१०.
 योग-भूमिका- -का अक्षि ४१;
 -का: महा ५,२२; -काम् अक्षि
 १०; १५.
 योग-अष्ट- -ष्ट: गी ६,४१.
 योग-भाषा- -षा तार २२३;
 १९५^{११}.
 योगभाषा-लक्ष्मी- -क्ष्मीम्
 त्रिवि ६,१७^०.
 योगभाषा-समाहृत- -त:
 गी ७,२५.
 योग-मार्ग- -र्गे मि ३; ५; ७;
 ९; योशि १,६२; १५८; -र्गेण
 पृजा २,१६.

योग-सुद्धा- -द्धया त्रिना २,९३.
 योग-यज्ञ- -ज्ञ: शा १४; -ज्ञा:
 गी ४,२८.
 योग-युक्त- -क्त: योशि ५,५५;
 गी ५,६; ७; ८,२७; -क्तम् नाप
 १८^०; -क्तस्य छु १५.
 योगयुक्ता(क्त-अ)त्मन्-
 -त्मा ते ४,५०; १योत १४०;
 २योत २,३; गी ६,२९.
 योग-युक्ति- -क्त्या वृजा २,
 १३.
 योग-योगिन्- -गिन: अक्ष ५,
 ५०.
 योग-राज^{११}- -जन्म थोरा १.
 योग(ग-श्रु)र्द्धि- -र्द्धे: नाप ५,
 २९.
 योग-लक्ष्मी- -क्ष्मी: नापू २,६.
 योग-वत्- -वात् सौ २,६.
 योग-विद्य-कर(र-अ)हार-
 -नम् १योत ४६.
 योग-विद्- -वित् व २; छु
 २४; घ्या ४६; ६१; ९१; नाप
 ३, ७९; ६,३; योचू ९; ३०;
 ६४; योशि ६, ३७; ५४; ५५;
 ६३; पव ३,३; ४; भव ३,२७;
 -विद्: त्रिना २,३८.
 योगवित्-तम- -म: १योत
 ४६; त्रिना २,१२२; -मा: पै ३,
 १३; अघ्या ३८; गी १२,१;
 -मै: योचू १; वरा ५,१६.
 योग-विधि- -धिम् क २, ३,
 १८.
 योग-विरोध- -ध: सांयू ४,९^१.
 योग-विदारद- -दै: योचू ११२.
 योग-वृद्धि-कर- -नम् १योत
 ४९.
 योग-शक्ति- -क्ति: सी ३५.
 योग-शास्त्र-प्रवृत्ति- -त्ति: नाप

५,१; १संन्या २,५९.
 योग-शिखा^{११}- -श्याम् योशि
 १,६९; ५,६०.
 योग-संसिद्ध- -द्ध: गी ४,३८.
 योग-संसिद्धि- -द्धि: ते ६,१२;
 -द्धिम् गी ६,३७.
 योग-संस्थि(त>)ता- -ताम्
 शि ६,११९.
 योग-संज्ञा-
 योगसंज्ञित- -तम् गी ६,२३.
 योग-संन्यस्त-कर्मन्- -र्मणम्
 गी ४,४१.
 योग-साम्राज्य- -ज्यम् वरा २,
 ८३.
 योगसाम्राज्य-दीक्षित-
 -त: जाद १,१.
 योग-सिद्ध- -द्ध: त्रिना २,
 १०३; -द्धस्य योशि १,१५६.
 योग-सिद्धि- -द्धस्य: सांयू ५,
 १२९; -द्धये छु १; १योत ७५;
 थोरा १; -द्धि: १योत १२७;
 मवा ७; -द्धिम् नाप ५, २९;
 योशि १,१४१.
 योग-सेवा- -वया १योत १४३;
 २योत २,६^१; योशि ३,१४; गी
 ६,२०.
 योग-स्थ- -स्थ: अक्षि ३; गी
 २,४८.
 योग-हीन- -नम् १योत १४;
 योशि १,१३; -ना: योशि १,२६.
 योग(ग-अ)धि- -धिनो योशि
 १,२९; ४०.
 योगाधि-भय- -यम् श्वे २,
 १२.
 योग(ग-अ)ह- -हावि घ्या ४१;
 योचू २.
 योगाह-द्रव्य-संपूर्ण- -र्णम्
 त्रिना २,९०.

a) =योगविशेष- । b) °लसा° इति श्रम्या. । c) °पदे इति श्रान. । d) =सतीविशेष- । e) °गल°, अहमायाम् इति निसा. । f) °कः इति श्रम्या. । g) °कः सः इति श्रान. । h) =तदात्योपनिषद्विशेष- । i) °ये वि° इत्यपि पाठे. ।

योगाङ्गा(ङ-ञ)नुष्ठान-न्वात्
योस् २,२८.

योगा(ग-ञा)स्मक-कः अता
१४; -कम् भव ३, १३.

योगा(ग-ञा)स्मन्-स्मा ते ४,
५०; वृष ८५: ४.

योगा(ग-ञा)दिक-कम् ते ५,
४१९.

योगा(ग-ञा)नन्द-स्वरूप-पः
ते ६, ६८.

योगा(ग-ञा)नुगुण्य-ण्येन
जाद १, १९.

योगा(ग-ञ)नुभव-वः दत्ता
१, ३.

योगा(ग-ञ)नुशासन-न्म
योस् १, १.

योगा(ग-ञ)भियुक्त-क्कानाम्
शि ५, ४०.

योगा(ग-ञ)म्यास-सम् त्रिवा
२, १९; वरा ४, ४०; भव ५,
२०; -सस्य योशि १, ७९; -सात्
मैत्रि ६, २९; योशि १, १४०;

वरा ५, ६७; -सेन शां १, ४;
योशि १, ७५; यो १, ५८.

योगाम्यास-कृत-ध्रम-मैः
प्रवि ५८^b.

योगाम्यास-रत-तः जाद
६, ११.

योगाम्यास-विधि-धिम्
वरा ५, १.

योगा(ग-ञा)रुद-दः वृज ४,
४; गी ६, ४; -उस्य गी ६, ३.

योगा(ग-ञा)मन-नम् अना
१२९; नाप ४, २४; त्रिवा २, ३८;
१४५.

योगि(क>)का^c-का पी
४२२: ९.

योगिन्-गिनःगौ ३, ३९; पूजा

८, ६; वृष ५, १; २०; नाद ५४;
१योत ४५; ६०; ६२; ७३; ८७;

९७; १३०; नाप ९, २०; त्रिवा २,
१४९; १५६; १५८; १६०: योच्

९२; मं २, ५, ३; राट ५, ३; राप्
१, ६; शां १, ७, १८; महा ४,

७८; योशि १, ७५; २, १९; ३,
३; ६, ७५; अन्न ४, ४४; ५, ४९;

७८; अघ्या ४; पाशु २, ३४;
त्रिता २, ३६; यो ३, १४; म २,

२६; ग ६; जाद १, २३; ४, ५२;
५९; १०, ९; वरा २, ७७; ३, ५;

५, ६७; पा १, १०; सार २७८:
२१; वज ६, १९; योस् ४, ७; ब्रम्

४, २, २१; गी ४, २५; ५, ११;
६, १९; ८, १४; २३; १५, ११;

-गिनम् शि ७, ८२; गी ६, २७;
-गिना १योत ६०; ७५; -गिनाम्

पहं १; प्या ५४^d; ६३; त्रि ४४;
१योत १; २योत १, १; योच् १;

३३; ४४; शां १, ७, ३७; योशि
१, ६३; ६, ५५; पाशु २, ४५; ग

१४; वरा २, ८१; सु २, २, ५४;
योरा १; नाप २, ६; शि २, २०;

सांस् १, ९०; गी ३, ३; ६, ४२;
४७; -गिने हं ३^e; -गिभिः ते

१, २०; १योत १२०; १२९;
योच् १८; १०२; १०८; अता

११; शां १, ३, ६; योशि १,
३८; ४८; १०७; यो १, ४०; ४६;

४८; वरा ५, ४१; सु २, २, ५१;
योरा २; -गिषु त्रिता १, १६;

-गी मैत्रि ६, १०^f; ना ४; म २;
अना २८; लु १५; २३; नि

३; ५५; ते ५, ४१^g; नाद ३१;
५२; प्या ३; ३८; ६८; ७०; ७२;
७३; आघो १; १योत ५४; ५६;
६९; ७१; ७२; १०३; १११;

११५; १२६; नाप ३, ७९; ४,
१९; ३२; ५, ९; २९; ३०; ६, २;

४; २४; ३५; त्रिवा २, २०; २२;
१०३; ११०; १४३^h; १६२;

१६३; १६६; योच् ३९; ४२;
४५; ८९; ९४; ९५; ९७; १०६;

१०९; १२१; मं १, २, ८; २, ५,
१; ४, १, ५; अता ६ⁱ; वा २०;

शां १, ७, १^j; १३; १५; ४४; योशि
१, ४४; ५०; ११३; ३, १०; ५,

५५; ६, २८; ३८^k; ३९^l; १संन्या
२, ७७; अन्न २, १५; पत्र ३, २; ९;

१अव २; ६; २अव ३३; ३; ९;
१०; त्रिता ४, २; ५, ७; यो १,

१७; ६३; २, ७; ८; १६; ३२; ४८;
ग १४; जाद ६, २५; ९, २; वरा

२, ४२; ८२; सौ २, १; ७; सर
२, ९; अहै १२; गोच ६६; १९;

शि ५, १८; भव ३, १६; ३२; गी
५, २४; ६, १; २; ८; १०; १५;

२८; ३१; ३२; ४५; ४६^m; ८,
२५; २७; २८; १२, १४.

योगिनी-नीम् पी
४२२: ६; न्यः त्रि २ⁿ.

योगिनी-काला-
(ल-ञ)गनि-कृता(त-ञ)-
रिष्ट-ष्टम् व ४३३: ११.

योगिनी-गण-सेवि-
(त>)ता-त्ता अन्न १, ७.

योगि-जन-प्रिय-यम् शां
३, ३.

योगि-देह-दः योशि १, ४१.
योगि-ध्येय-यम् वृजा ८,

६; वृष १, १०; ५, २०; वट ५, ३०.
योगि-पुंगव-वः शां १, ४.

योगि-राज्-राट ते १, ३९;
१योत ७६; ना २, २२.
योगि-वयं-याः राट १, २.

a) योगियोगा^o इति श्रव्या. । b) *गमार्गकृ^o इति श्रव्या. । c) =देवीविरोप- । d) *गिना इति निगा. ।

e) *गिनाम् इति निगा. । f) *योगिनी^o इति तात्प्र. ।

योगी(गि-ई)न्द्र-न्द्रः योशि
 १,४३; १५०; अत्र १,१; न्द्राः
 रार १, ७; सार २५८: १६;
 -न्द्राः रार १, ५; न्द्राणाम्
 शि ७,१०२.
 योगीन्द्रा(न्द्र-आ),वसथ-
 -यन् शि २. १६.
 योगी(गि-ई)श्वर- -रः मैत्रि
 ७,१; वोचू११५; योशिद, ६५.
 योगै(ग-ए)क-गम्य- न्यः वां
 २,१.
 योगै(ग-ए)श्वर्य- -यैल अशि ४,
 २४; वट्ट ३१६: १६.
 योग्य,स्या- न्यः ते १, २७; त्रिता
 १,५२; न्यम् शि ४,२१; न्या
 सार२४९:१; न्याः सार२४१:
 १४; २४२: १२; २६६: १३;
 २६७: १५; न्यानि सार २४०:
 ४; न्येषु सार २४८: २१.
 योग्यन्ता- -ता सार२३४: १७;
 योस् २,५३; -ताम् सार २३९:
 ७; २४०:२; २४६: २२; २५४:
 १८; अत्र ३,१६.
 योग्य-त्व-
 योग्यत्वा(त्व-श्)भाव-
 -वात् सांस् ६,३३.
 योग्या(य-श्)योग्य- -न्येषु
 सांस् ५,४४.
 १योजन- -नात् शे १, १०; नाप
 ९,९.
 योजनी(य>)या- न्या म १,
 ४७; मु २,२,६.
 योजना- -ना गौ ४,५९.
 योजयित्वा त्रिता २,४५.
 योजित,हा- -तम् वृजा ४, ९; शि
 ७,१०८; -ताः सार २७२:७;

यु ७७; -तै वरा २,७०.
 योजिता(त-आ)त्मन्- -त्मने
 सार २५२: ३.
 योग्य- न्यः त्रवि १२; रार ४,
 ११; १२ ३१:२२.
 योग्यमान,ना- -नाः सार २७०:
 २२; -नाम् रार २४६: १३;
 -नानि सार २६७: ३.
 युत- /यु(मिश्रणे) द.
 /युध्->युत्स्य, युष्यते ते ६, ९२;
 युष्यत्व गी २, १८; ३, ३०; ११,
 ३४; युष्य गी ८, ७.
 युत्स्ये गी २, ९; १८, ५९.
 युद्ध- -द्धम् राप ४, २८; महा ४,
 ६४; गी २, ३२; -द्वात् गी २,
 ३१; -द्वाय गी २, ३७; ३८;
 -द्धे गी १, २३; ३३; १८, ४३;
 -द्धेन कौ ३, १.
 युद्ध-विदारद- -दाः गी १, ९.
 युष्- युधि गी १, ४.
 युधा
 युधा-भन्यु'- -न्युः गी १, ६.
 युधि
 युधि-ष्ठि(<स्थि)र'- -रः गी
 १, १६.
 युधि- -धये व ४६०: ११५^b.
 युष्म'- -धम् औषे ९: १७^d.
 युयुधान'- -नः गी १, ४.
 युयुत्सु- -त्सवः गी १, १; -सुम्
 गी १, २८.
 योत्स्यमान- -नान् गी १, ३३.
 योद्धव्य- -व्यम् गी १, २२.
 योद्धुम्
 योद्धु-काम- -मान् गी १, २२.
 योध- -धाः गी ११, ३२.
 योध-मुह्य- -ह्यः गी ११, २६.

योध-वीर- -रान् गी ११, ३४.
 युव- युष्मद्- द.
 युवति-, युवती-, युवन्- /यु
 (मिश्रणे) द.
 युष्मद्'-
 *तय'- -ते ई १६^a; १८; के २, १; क
 १, १, ९; प्र २, १०; तै का¹; १, १२,
 १; छा १, ५, २; १०, १०; ११; वृ
 २, १, १; ३, ६, १; १५, १५^b; कौ
 २, ८^c; नी १, ३१^d; पा ९, ६^e.
 *तवर'- -व क १, १६^f; १९;
 छा ४, २, ३; ५, ३, ६; वृ ६, २, ८;
 मना १, १५^g; शु १, ६; स्क १;
 त्रिवि ८, १; अत्र ५, ३८^h; अत्रि
 २२^k.
 तुभ्य'- -भ्यम् प्र २, ७; वृ ६, २,
 ४, ८; मै ४, १, ४; १५; तै ४,
 २८; द ९; वा ७; योशि ६, ३;
 अत्र ५, १०५.
 त्वद्'- -त्वत् वृ ६, १, १३; मना २,
 ५४^l; नाप २; पा ६, ८^m; वज
 ३, ४३.
 त्वच्-छाया- -चायाम् तुल
 ७१: २.
 त्वत्-तस(>) छा¹ ५, ३, ७; राव
 ३, ७; महा २, ३५; ग ६ⁿ; पा
 २, ६; सार २२०: २३; वज ३,
 ३३; गी ११, २.
 त्वत्-ता- -ता ते २, २६; ६,
 ५१; महा ५, ४४.
 त्वत्-पाद-मुगल- -ले वृजा ६,
 ११.
 त्वत्-प्रसाद- -दात् गी १८, ७३.
 त्वत्प्रसाद-तस(>) शु १, ५.
 त्वत्-प्रसृष्ट^m- -ष्टम् क १, १, १०
 त्वत्-सकाश- -शात् वरा १, १.

a) प्राः इति निसा. यनि. योधः द. (तु. ऋष्या.)। b) श्र १०, ८४, ४। c) वैपरी यद.। d) 'युष्मद्'
 इति वे.। e) का ४०, १, १६^a; श्र १, १८९, १। f) 'मे' इति श्र १, ९१, ११। g) 'वित्ते' इति पा.१ 'वि ते' इति
 पदद्वयपरः योधः द. (तु. अत्र.)। h) वैतु. पाटी. /वह्->पदये इति। i) श्र ८, ६१, १३। j) 'तथा' इति
 ऋष्या. संदि.। k) 'मम' इति ऋष्या.। l) श्र १०, १२१, १०। m) वैतु. jC. पदद्वयमिति।

स्वत्-सप्त-सः गी ११, ४३.
 स्वद्-अन्य-न्यः गी ६, ३९;
 -न्येन गी ११, ४७; ४८.
 स्वद्-अभिज्ञ-सप्तम् त्रिवि८, १७.
 स्वदीय-यम् ते ५, ५०.
 स्वद्-आगधेयिन्-यी शौ
 ५१: ९.
 स्वद्-रूप-पम् सु १, १, ५.
 स्वद्रूप-ज्ञान-नात् वरा
 १, १.
 स्वद्रूप-प्रतिपादक->)
 दिका-काम् वरा १, १.
 स्वद्-व्यतिरिक्त-क्तम् त्रिवि
 १, १.
 स्वन्-नाम-भजन-नात् सु १,
 १, १६.
 स्वन्-मुख-खात् पप ४१७: २.
 स्वन्-मूल-ले तुल ७१: २.
 स्वम् ई १५; के १, ४, ५; ६; ८; २,
 १^३; क १, १, १२; प्र २, ७; ९; १०;
 ११^३; ६, ८; छां १, ५, २^३; ४;
 वृ १, २, २-७; ३, १, २; मना २,
 १५^३; ६८^३; ७६^३; पहं ४^०.
 स्व-शब्द-हीन-नः ते ५, ६.
 स्वम्-अर्थ-र्थः शु ३, १०; रार
 ५, १३.
 स्वम्-अहं-शब्द-लक्ष्या-
 (द्वय-अ)र्थ-थैम् वरा २, १७.
 स्व-पद-दम् शु २, ५; योच्
 ८२; दे शु ३, १०.
 स्वपद-महा-मन्त्र-न्त्रस्य
 शु २, ५.
 स्वपद-वाच्य-न्य-पै ३, १.
 स्वपदा(द-अ)भि(धा)>य-
 -यः अग्या ३१.

स्वपदा(द-अ)र्थ-र्थः ससा
 १, ३०; -र्थात् ससा १, ३७.
 स्वपदार्य-वत्-वान्
 रार ५, १२.
 स्वपदे(द-ई)रित-तम् शु
 ३, ६.
 स्वय्-त्वया क १, १, २०; मना
 १, १५^३; २, ४१^३; शु १, १२;
 नाप ५, १; रार १, ८; महा २,
 ७०; ७१; ए ३, जावा ४; सु २,
 २, ३१; त्वयि ई २; के ३, ५; ९;
 तै १, ४, ३; वृ ६, ३, १; ४, २४; २५;
 मना १, ८५^३; कौ २, १५^३; ते
 २, ४२; सु २९, ३; ७५^३; य७५^३.
 श्वा-स्वाम् क १, १, ११; तै
 १, १, १; १२, १; छां ४, ४, २; ४;
 वृ ३, ९, १८; वृजा ३, २०; ६,
 १०; त्रिवि ७, ४०; महा ४, ९४;
 स्वा-दृश्-दृक् क १, १, २२; २, ९.
 श्वा-स्वा क १, १, ४५^३; प्र ६, १;
 तै १, ४, ३; छां १, ८, ३; २, २२,
 ३; वृ २, १, १४; १५; खे ४, २२;
 जा ५; कौ १, १; २, ११^३; १५;
 नी २, २५^३.
 युव-वम् लि ३१०: १५^३;
 -वाभ्याम् सार २५७: १७.
 युष्मद्-
 युष्मकं-
 युष्माकं-कम् वृ ३, ८, १;
 १२.
 यूयम् छां ५, १८, १; वृजा ६, ५;
 अज ३, ८; त्रिता १, ७६; गोपू
 ४६; कृ १ सौ १, १; वपू १, ५.
 यू-वः प्र १, २; ६, ६; सुं १, २, १;
 ६; २, २, ६; छां ५, १, ७^३; वृ ३,

१, २; ९, २७^३; मना १, १२^३;
 २, ६०^३; वाम् ऐ २, ५; वृ २,
 ५, १६^३; १७^३.

यूय-यानि सार २२८: १६; २३३:
 ११; २३४: १; २४०: २३^३;
 २४१: १; २४५: २३; २६६:
 २१; २६७: २; २७४: १५; १६;
 २७५: २२; २८२: ४; -थे
 सार २७४: १७.

यून्-यु(मिश्रणे) द.
 यूनान्(द्वय)>स्था-स्था अद्वै ६.
 यूप-यः मना २, ८०^३; प्रा ३, १;
 ४, १.

यूप-स्व-स्वम् इ ११: २२.
 यूप-दाना-शोमित-तस्य प्रा
 ३-४, १.

योक्तव्य-योक्त्वा, १-६योग-योगि-
 का-, १-२योगिन्-योगिनी-,
 योग्य-, १योजन-युज् द.
 योजन-नात्-नात् नाप ३, ६५; नावि
 सार २५५: १५.

योजन-मात्र-त्राय शि ६, २०६.
 योजनाय्
 योजनायित-तम् सार २५३:
 ४; २६२: ७.

योजना(न-अ)यत्-तम् सार
 २६८: ३.

योजनीय-, योजना-, योजयित्वा,
 योजि, योजित-, योज्य-,
 योज्यमान-युज् द.

योक्तव्यमान-योक्तव्य-, योक्तव्यमान-,
 योक्तव्य, योच-युप् द.

योनि-निः मां ६; छां ५, ८, १;
 वृ १, १, २^३; ४, ६; ११; ६, २,
 १३; खे १, २; जा ४^३;

- a) वैप १ यद. । b) श्र १, १८९, २ । c) तैत्रि १०, ३१, १^३ । d) श्र २, १, १^३ । e) 'सच्वम्' इति
 निसा., 'नक्तम्' इति अग्या. । f) 'तया' इति तैत्रि १०, १, ८ । g) तैत्रि १०, ३९, १^३ । h) तैत्रि १०, १, ८ ।
 i) तैत्रि ३, ११, ८, १ । j) सञ्च 'त्वाम्' इति शांशा ४, ११ । k) 'एनम्' इति मा १६, ७ । l) श्र ६, ७४, ३ ।
 m) श्र १०, ९, २; ३ । n) श्र १०, ३७, १२ । o) श्र १, ११६, १२^३ । p) श्र १, ११७, २२^३ । q) पा. 'जरा(रा-अ)-
 य(द्वय)>स्था-' इति शोषः द. । r) तैत्रि १०, ६४, १ । s) तु. सत्य. टि. १प्रति । t) वप्रा. वैप १ यद. । u) श्र ३, २९, १० ।

मैत्रि ६, १४^३; ७, ८; मना २,
३५^५; वृष ४, ६; वृष १, ९; सुबा
५; ध्या ४^२; नाप ३, ७७^३; ५^७;
८, १४; ९, १; योचू ८; १४; राउ
३, १; पप ४१८, १०५^७, १२; ए
३; सावि २-९; दे ३; ९५^०;
त्रि ८; या १, १^३; ५^७; विद्या ४;
वज १, ११; ५, ३७; ब्रह्म १, ४,
२७; गी १४, ३; ४; -निम् क
२, २, ७; छां ५, १०, ७^३; वृ १,
४, ११^३; ६, ४, २१५^७; धे २, ७;
मैत्रि ६, १८; मना १, १०५^०;
ध्या ७५; १यौत १२०; नाप
३, ७७; ४, २८५^३; निमा २, ४९;
योचू ४६; ६६; शां १, ३, ७, ७,
४३^३; पप ४१८: १२; त्रिता २,
३८; ३९; रसंन्या १६: ८५^०;
१२५^०; या १, १; चा १७; निरु
१, ३; रशिसं १५५^७; ३२५^०; पी
४२१: ८; ४२२: १४; सुसु ६;
९; गी १६, २०; -निम्-निम् धे
४, ११; ५, २; अशि ५, ४; -निपु
त्रि ५, ३; गी १६, १९; नी-
धे ५, २; सावि ११^३; त्रि २१^३;
१२१^३; जे: वृ १, ४, ६; कौ१, ६;
ध्या ९३; ब्रह्म ३, १, २७; नौ निरु
१, ५; १०; सुसु १५; तारा ८४:
१२; न्या रापु ४, ६३^३; न्या:
गर्भ ४^३; न्याम् गर्भ ३१^०.

योनि-कोटि-सहस्र- खेपु गव
१, ५.
योनि-गत- -तस्य धे १, १३.
योनि-जन्मन्- -न्मानि १यौत १३४.
योनि-व- -स्वम् वृ ९, ६.
योनि-ज्ञात- -नम् गर्भ ४^०.
योनि-पञ्चक- -के सुसु १४.
योनि-बन्ध- -ज्य: १यौत १२१.
योनि-मण्डल- -ले ध्या ८५.
योनि-मध्य- -ध्ये ध्या ४५; योशि
१, १३६.
योनि-सुक- -क्ता: धे १, ७; मव
२, ६.
योनि-सुता^३- -द्रया ध्या ८६; योचू
५९; त्रिता २, ६६; -द्रा भाप
३९९: १०; -द्राम् त्रिता ३, ३.
योनि-स्थान- -नम् ध्या ४४; योचू
७; -ने ध्या ८७; १यौत ११२;
शां १, ७, ४३.
योनि-स्वभाव- -वान् धे ५, ४^०.
योनिपार:^३ ए ३.
योया^३- -या छां ५, ८, १; वृ ६, २, ११.
योपित्- -पित् ते ६, २८; अरु २८५^३.
-पित: राउ ५, १६; त्रिता ३, २४.
योपित्-थिय-कर- -र: कालि
४०२: १२^३.
योपित्-आसक- -क: कालि ४०२:
१४.
योपि(त>)ता^३- -त्तायाम् सुं २, १, ५.

५^०योस्(>) मना २, १; व ४६१:
११.
योगपद्य- ✓युज् द.
यौवन- ✓यु(मिथौ) ६.

र
१२^३ र-र-र वपं ३१२: १.
१२-कार- -रम् ध्या ९५.
र-म- -नौ रा २, १०^३.
१२^३ भाप ३९६: २; व ४३६: ६;
हंपो १२.
रं-कार- -०२ अञ् ५.
२^३ रा ३, १.

२२^३
२२-कार- -र: रा ५, ३.
३२^३
३२-कार- -र: ता १, २.
४२^३-र: मै ५, ७१^०; मैत्रि ६, ७५^३.
५२- ✓रम् द.
२२^३ व ४३५: २१^३.
✓रं हं हति मत् ३, १, १.
१-४२क- ✓रम् द.
✓रक्षु^३(वधा.), > रक्षि, रक्षति वृष ३,
२; वपू २, २; पित्र ३, २; रक्षन्ति
पित्र ३, २; रक्षसि वठ ३, ६०;
रक्षतु व ४९८: ५, ६; रक्षन्ताम्
मना २, ३१५^०; ३२५^०; रक्षस्व
प्र २, १३; मना १, ८५^०; ऊ
६३: ८५^३; व ४६४: १०५^३;

a) तैश्चात्मा १०, ३५ । b) श्र ३२, २९, १० । c) श्र १०, १२५, ७ । d) श्र १०, १८४, १ । e) मा १३, ३ । f) तैश्चा २, ५, ८, ८ । g) नौ ७, १०२, ५ । h) मा ३१, १९ । i) निमा. पा. १ नि: इति शोध: द. (तु. अश्या.) । j) ० नि: इति निमा. 'निम् इति अश्या. च यनि. शोध: द. (तु. ताग्नि.) । k) ० नि: इति अश्या. । l) = एत-बीजाचर- । m) न्याम् इति भ्रान., अश्या. । n) 'तनु स्याद् सतः' इति निमा. यनि. शोध: द. (तु. भ्रान.) । o) ० द्वारि इति भ्रान., अश्या. । p) ० नि: स्व' इति भ्रान. गेटि. । q) निमा. १ 'ऊनि-पर- (=ऊनि-परक-)> -र' इति शोध: द. । r) वैपरी यद. । b) तैश्चा १, २७, ४ । १) ० यिगु मिय' इति ताग्नि. । c) = योपित्- वत् यनि. एवाऽन्तत ऊनितं स्थान्तरं द. । d) व्यु. विस्तरस्तु वैपरी यद. [वैतु. विपु. (IIIQ ११Q, ८९) यनि. <योपित्- इति वैप. प्रतिशोक्त इव] । v) श्र १, १८९, २ । w) द. गपू. ५२६, ५८ । x) वैतु. उत. अश्याया कल्पुकः । y) = बीजमन्त्रविशेष- । z) 'राम- इत्यस्याऽऽयाऽचरम् । a) १) 'भारतण- > -याव' इत्यस्य द्वितीयचरम् । b) 'मर्गे- > -नौ' इत्यस्य मध्यमाचरम् । c) निमा. प्रच्युतः पुनःप्रदानात्पेचः द. (तु. नाउ., सात.) । d) तु. डि. कुं । e) तैश्चा १०, २४, १ । f) तैश्चा १०, २५, १ । g) तैश्चा १०, १, ८ ।

रक्ष वृजाद्, १; वा११; गोच ६६:
१०; व ४६५; १६; ४६६: ६;
रक्ष-रक्ष त्रिवि ७, ३६; लां२१४:
१५; २१५: १६; वपं ३१२:
१४; व ४३४: १६; रक्षतम्,
रक्षत आठ ३^०; अरक्षम् रा ८;
पे १, २, ७; अरक्षन् पे ४, ५; रक्षेत्
शि ५, ९; व ४३०: २०; ४५८:
५; ६; ८; १५.
ररक्ष श १५; अव्य ६; रक्षि-
ष्यामि सार २७८: ५.
रक्षय आठ ३.

१रक्ष-

र(क्ष>)क्षा-पवित्र^b- -ग्रम् शि
५, ११.

रक्षक- -कः ते ५, ५१.

रक्षण- -णम् ते ६, १०२; -णाव छ
१८.

रक्षत्- -क्षानि, -क्षस्म पित्र ३, २;
-क्षन् वृ ४, ३, १२; पप ४१९: ६.

रक्ष(क्ष>)क्षा^c- -क्षाम् अना१८^d;
त्रिवि ७, ४०; राष्ट्र ४, १५^e.

रक्षा-र(क्ष>)री- -रीम् प्रिता
२, १९.

रक्षा(ला-अ)र्थ- -र्थम् शि ५, ३;
६, २४३.

रक्ष(क्ष>)शा^f- -क्षा वृजा १,
१^g; १^h.

रक्षित(क्ष>)ता- -ता षोड २०.

रक्षितृ- -ता १ⁱ व ४४२, १९, ४४७:
१५; ४५२: २; ४५५: ७.

रक्षत्^j- -क्षत् व ४३५: २१; -क्षांसि
दे १०; प्रा १, ३१^k; इ १६: ५;
८; वा ७, नार ६; सं १२२; गी
११, ३६; -क्षोभिः सार २, ४५.

-क्षोभ्यः इ १०: १४.

राक्षस- -त्तः व ४४४: ३; १३;
२३; ४४५: ११; २१; ४४६:
१०; २०; ४४७: ८; १९; ४४८:
७; १८; ४६५: ९; -सम् इ १६:

७; -साः राष्ट्र १, २; -सान् राष्ट्र
१, ३; -सैः सिशि ३८२: २२;

राक्षसी- -सीम् गी ९,
१२.

राक्षस-मर्दन^l- -नः सार २,
४९.

रक्षा-स्त्रम्- -नः कृ १४^m.

रक्षो-ग्र- -ग्रम् वृष् ५, १०; वृजा
३, १ⁿ; -ग्राय राष्ट्र ४, १४.

रक्षोन्न-विशद- -दम् सार २, ९१;
-दाय त्रिवि ७, ४६; सार २, ७८.

रक्षो-देव-जन- -नेभ्यः मना २,
६७^o.

रक्षो(क्ष-अ)धिपति- -तये व
४३५: २१.

रक्षो-हृत्^p- -हृणः वष् १, ६; ७.

रक्षु^q- -योः राष्ट्र १, १.
राक्षु^r-

राक्षव^s- -वष् सु १, १, १०;
-वः राष्ट्र ४, २२; २४; ५, ९;

-वम् सार २, २४; ४५; ३, १; राष्ट्र
५, ७; -व्यस्य सार ४, १३.

रक्षु-नन्दन^t- -नः राष्ट्र ४, ३०;
-नम् सार २, ९०; -नाय त्रिवि
७, ४६.

रक्षु-नाय^u- -नथ सार १, ८.

रक्षु-वीर^v- -वीर त्रिवि ७, ४०;
सार २, ८१; राष्ट्र ४, १५; -नाय
राष्ट्र ४, १४.

रक्षु-श्रेष्ठ^w- -श्रेष्ठ सु १, १, ५; ८.

रक्षु-वंश-

रक्षुवंश्य- -श्याय व ४६३: ११.

रक्ष्- √रञ्ज् द.

√रक्ष्, > रक्षि, रक्षयति सार २३८: ८;
२४१: २०; २६९: १२; रक्षयन्ति

सार २२२: २३; २२५: ६;
२२९: ९; २३७: ८; २७०: ९;

१२; १४^x; रक्षयेत् शि ६, ४३.

रचना-

रचना(ना-अ)नुपपत्ति- -त्तः प्रत्यु
२, २, १.

रक्षयित्वा सार २६८: १९.

रक्षित, ता- -तम् सार २४६: ६;
-ता सार २६३: २३; २६६:
१६; -ताः सार २२३: १६;

२३७: १७; १८; २०; २१; २३;
२६६: १२; २७६: २१; -तानि
स्व ६१: ३; सार २२३: १२.

रक्षित-योग्य- -ग्यानि सार
२६३: १५.

रक्षित-शाय्या- -श्यायाम् सार
२३४: ११.

रजत्- √रञ्ज् द.

रजत्^y- -तम् छां ३, १९, १, २; ४,
१७, ७^z; पा १०, १^{aa}; -तेन छां
४, १७, ७^z.

रजत्- -तम् अक्ष २^{ab}; -ते वृजा
३, ६; म १, ४.

रजत्-रथाति- -तिः योशि ४, १४.

रजत्-रथ- -रथेन योशि ४, २२.

रजत्-स्थिति- -तिः योशि ४, १३.

रजत्-रथ(ज>)ज- -जा सौ १, १, २.

रज(नि>)नी^b- -नी ए ६.

रजन्म(नी-अ)न्त- -न्तम् शि ५,
१८.

n) भूषणे पागे. कृते दु. अस्या. संदि. । b) कत. पूष. दोषे: (पा ६, ३, १३७) । c) पा ३, १, १-३ ।
d) ऋ^० इति निला. वनि. षोषः द. (दु. अना., अस्या.) । e) 'रक्ष' इति अना. । f) पा. अर्थः? =भस्मन्- ।
g) ऋ १, ८९, ५ । h) वेप १ यद. । i) सौ ६, ८१, १ । j) उप. कर्त्तरि कृत् । k) इति अना. । l) पा. अर्थः? =भस्मन्- ।
m) ऋषय वनि. षोषः कर्त्तव्यः । n) रा^० इति अस्या. । o) सैधासा १०, ९७ । p) दु. मा ५, २५ । q) ध्युः =देहाक-
विशेष- । r) =पयिवयुतविशेष- । s) =उम- । t) जैड ३, ४, १, १ । u) वंश. पाटी. =रजोगुण- इति ।

रजस्- -जः घृ ५, १४, ३; ६, ३, ६९^१;
जा ४; काला १३; गै ४, ५; मना
१, १५^१; २, ३९^१; घ्या ८७;
८८^१; ८९, ९०; १योत १२; नाप
३, ७७; योचू ६१; ६२^१; ६३;
६४; रापू ५, ४; योशि १, १०;
१३७; पप ४१८ : १०; त्रि ४;
गोउ ५५; या १, १; जाना २१;
इ १६ : १८; पा १०, ६; गा ९;
वउ ३, १७; सांका १३; गी १४,
५; ७; १, १०^१; १७, १; -जसः मै
४, ५; योशि १, १३७; गोउ
३०^१; पा१०, ६; गी १४, १६; १७;
-जसा २प्र ३६; १२; य ४३७ :
६९^१; -जसि गोउ ५५; गी १४,
१२; १५; -जसे अक्षि १; चा १०;
-जसि नापू ४, ५९^१; शि ७, ५१.
राजस्- -स वउ ४, ४६; -सः
मै ४, ५; मैत्रि ५, २; योचू ७२;
७५; शारी ५; वउ ४, ११; २५;
गी १८, २७; -सम् शारी ५; भव
४, ८; गी १७, १२; १८; २१;
१८, ८; २१; २४; ३८; -सस्य
शारी ३; गी १७, ९; -साः गी
७, १२; १४, १८; १७, ४; -साम्
सांका ४५; -सामि मै ३, ५^१;
मैत्रि ३, ५.
राजमी- -सी गोउ ६३;
कृ ४; वउ ४, १२; गी १७, २;
१८, ३१; ३४; -स्याः वउ ४, १४.
राजस्-माया(या-श्च)रमक-
-कः पाशु १, १०.
रजस्-वमस्- -नोभ्याम् मैत्रि ६,
२८.

रजस्तमः-स्वरूप- -पेण भव
४, ७^१.
रजस्-य^१- -यम् मना १, १४^१.
रजम्-यल, ला^१- -लम् नाप ३, ४७;
-ला इ १६ : १७.
रजः-सपय-तमो-गुण- -णाः शु८१;
-शैः रापू २, २.
रजस्-स्त्री-संगम-
रजस्त्रीसंगमिन्- -मी इ १७ :
१२.
रजो(जस्-श्च)श- -शान् पे १, २१.
१रजो-गुण^१-
रजोगुण-प्रधान- -मैः त्रिभि
६, ५.
रजोगुण-समुदय- -वः गी ३,
३७; -यम् यो १, ६७.
२रजो-गुण^१- -णः प्या १२.
रजो(जग्-उ)द्रि(कृ>)का^१- -क्ता पे
१, ११.
रजो-धूमा(म-श्च)दि- -द्रिभिः गी
३, ५.
रजो-रूप- -पः शां १, ४.
रजो-विशाल, ला- -लः सांका ५४;
-ला सांस् ४, ५०.
रज्जु^१- -ज्जुः गी२, १७; १८; योशि
४, २; २१; २२; कृ २१; सार
२३९ : २१; -ज्जुभिः सि ६,
१२५; -ज्जुम् नाद २६; शि ६,
२७६; -ज्जो नि २९; आबो २९;
१आ २७; -ज्जवा योशि १, ५९;
-ज्जयाम् गी २, १८; योशि ४, १.
रज्जु-खण्ड- -ण्डे नाद २७.
रज्जु-बद्ध- -द्धः योपू २९; -व्याः
महा ६, ३९.

रज्जु-भुजङ्ग-
रज्जुभुजङ्ग-वत् यो १, ७९.
रज्जु-सत्ता- -त्ता आबो १२.
रज्जु-सर्प- -पेण ते ६, ७७.
रज्जुसर्प-दुर्बल- -नेन अक्ष १, १६
रज्जुसर्प-वत् निर्वा २९७ : १२;
कठ १३; हृद् ३४.
रज्जु(ज्जु-श्च)शान- -नाम् योशि
४, २.
√रज्ज् (> यथा.) > रजि, रारम्ज्,
रक्षयति मै ५, ७; मैत्रि ६, ७;
रक्षयेत् योशि १, ५६.
१रक- -क्तः नाप ३, १८; कालि
४०२ : ११.
रक-ता- -ता महा ५, २९; वरा
४, ५; -ताम् महा ६, ७५^१.
रक-शरीर-संयुक्त- -क्तः सार
२९१ : ११.
२रक^१- -क्तः गर्भ २; -क्तम् ते ४,
२५; अव्य १^१; २; पं १२.
३रक, क्तो^१- -क्तः योचू ७५;
-क्तम् १योत ९२; शि ७, ५०;
९१; वउ २, २२^१; २३; ३, ९;
-क्ता अशि ५, ९; मन्त्रि ५;
२प्र ३४:२०; गार ४०६:१३;
१६; -क्ताः कु ८; अक्ष ३; -क्ताम्
हजा १, १०.
रक-गन्ध-मालया(ल्प-श्च)जु-
छेप(न>)ना- -ना गार ४०६:
१७^१.
रक-गन्धा(गन्ध-श्च)जुलिता-
(श-श्च)क- -क्तम् ग १२.
रक-चण्डु-जुट- -टाभि सार
२८२:४; ६.

a) पया. वैपश् यद. इ हृद् =लोक-, धूलिकण-, रजोगुण- प्रथ. । b) श्र १, ९०, ७ । c) वृ. सस्थ. टि. भूमि- > -मिः । d) उत्तरेण संघिरार्पः । e) श्र १, ३५, २ । f) श्र १, १५४, १ । g) *साम्निवै* इति निसा. अश्या. च यनि. शोधः प्र (तु. नाउ., सात.) । h) *जस्तमस्व* इति पा. १ यनि. शोधः प्र. । i) घः प्र. (पावा ५, २, १०९) । j) वृ. गपू. वृ १२८p; वैतु. भा. सा. 'रजः स्वम्' इति (तु. तैश्चा १०, १, १४), नादी., j.c. । k) पा ५, २, ११२ । l) कत. । m) वस. । n) वैपश् यद. । o) रि^० इति अश्या । p) व्यु. १ =वर्णविशेष- । q) विप. =वर्ण-विशेषवत्- । r) *नी इति पा. १ यनि. शोधः प्र. ।

रक्त-चासु(रड)ण्डी-०० णिड
 व ४३२ : १५.
 रक्त-पीठो(ठ-उ)पवि(ष्ट)ष्टा-
 -ष्टाम् सुसु १.
 रक्त-पी(त)ठा-त्ता अ १.
 रक्त-पुण्य-प्यैः ग १२; काम २४.
 रक्त-भङ्गी-स्फुरत्-रत् मं १,
 २, ८; अता ६.
 रक्त-लम्बो(म्ब-उ)दर-रम् ग
 १२.
 १रक्त-लोचन^०-
 रक्तलोचन-भीप(ख)णा-
 -णाम् व ४६६:३.
 २रक्त-लोचन^०-नः व ४३४:४.
 रक्त-वर्ण,र्णा-र्णैः वसू ९; राधा
 २, ५; व ४३९:९; ४४२ : १३;
 -णैम् ष्या ९३, ३; वपू २, २;
 -णो ब्रजा १, १; -णै वि ३.
 रक्तवर्ण-मणि-प्र(ख्या)ण-
 ख्य-ख्यः अना ३७^१.
 रक्त-वर्णक-काः रुजा १, ९.
 रक्त-वस(न)ना-नाम् दे
 १५.
 रक्त-वस्त्रा(त्र-अ)लंकार-यु-
 (क)क्ता-क्ताम् सुसु १.
 रक्त-वास^०-
 रक्तवासि(न्)नी-नी
 गार ४०६:१७.
 रक्त-वासस्-ससम् ग १२.
 रक्त-शुक्ल-पदै(र-ए)ङ्गी-
 कारण-णम् भा ३०.
 रक्त-शुक्ल-मिश्र-निर्वाण-रूप-
 रक्तशुक्लमिश्रनिर्वाणरूपि-
 (न्)णी-णीम् कामे ६.
 रक्त-स्फटिक-प्रतीति-ति:
 त्रिवि ३, ७.

रक्ता(क-अङ्ग)ङ्गी-ङ्गी सां
 १, ६; गार ४०६ : १७.
 रक्ता(क-अ)म्बुज-संस्थित-
 -तम् सू ४.
 रक्तो(क-उ)स्पला(ल-आ)भास-
 -सम् लु १०.
 ४रक्त^१-क्तम् तै ४, २४; ६, ७; यो
 १, ७०; वरा १, १०; -क्तस्य नि
 २३.
 रक्त-धारा-राः वपं ३१२:२१.
 रक्त-पायि(न्)नी-नी न वि
 ४४९ : ७.
 रक्त-मांस-
 रक्तमांस-मय-यस्य महा
 ३, ३१.
 रक्त-मूत्र-लाला-स्वेदा(द-आ)-
 दिक-क्तम् पै २, ५६.
 रक्ता(क-आ)दि-दि महा ४, २३.
 रङ्ग-क्तस्य सांका ५९, ९^१.
 रङ्ग-व(त्)ती-ती सार
 २२६ : २; २२९ : १६; १९;
 २६२ : २१; २६५:१६; २६६ :
 १; २६८:७; -स्यः सार २६४:
 १५; -स्या सार २३७:२०.
 रङ्गवत्या(ती-आ)दि-दयः
 सार २२५:५; २६२:८; २७०:
 १९.
 रङ्ग-स-भाव-वान् सार
 २७० : १९.
 रङ्ग-श्रेणि-विराजित-तम् सार
 २६८ : ४.
 रजत्-जते पा १०, १.
 रजन्ती-न्ती पा ६, ७.
 रज्जन-नम् अक्ष ५, ९८^१.
 रजित-
 रजित-मध्य-चियुक्त-क्तम्

सार २६५ : ८.
 १राग-गः मै ३, ५; मैत्रि ३, ५;
 ते ४, २१; ५, ७७; नाप ४, ५^१;
 महा ५, १६९; भा२३; योम् २,
 ७; -गाम् नाप ३, ७०; वरा २,
 ४८; -गान् सुं १, २, ९; नाप ३,
 २९; सांस् ५, ६; सांका ४५; -नो
 पदं ४; तुअ १८.
 राग-द्वेय-वौ महा २, ४९; गौ
 ३, ३४; १८, ५१.
 रागद्वेय-क्षय-द्वेय नाप ३,
 ४५; भव ५, ९.
 रागद्वेय-विमु(क)क्ता-
 -क्तया १संन्या २, ४०
 रागद्वेय-वियुक्त-क्तैः गी२,
 ६४.
 रागद्वेयवियुक्ता(क्त-आ)-
 रमन्-रमा नाप ३, ३४.
 रागद्वेया(प-आ)दि-दयः
 महा ५, ३.
 रागद्वेयादि-तानव-वे
 महा ४, ६२.
 राग-द्वेय-भया(य-आ)दि-
 -दीनाम् वरा ४, २४.
 राग-विराग-गयोः सांस् २, ९.
 राग-शान्ति-न्तिः सांस् ४, २७.
 रागा(य-आ)भ्रमक-क्तम् गी
 १४, ७.
 रागा(ग-आ)दि-दयः नाप ४,
 १६; सार २९१ : २२; २९२:
 २; ३; ५; १०; -दिभिः सांस् ४,
 ९; -दीनाम् जाद ६, ५०.
 रागादि-क्लेश-दूषित-तम्
 महा ४, ६६^१.
 रागाद्य(दि-अ)पेत-तम्
 जाद २, ८.

a) रक्तं लम्बो^० इति निसा. । b) कस. । c) वस. । d) णैः मणि^० इति निसा. अथवा. च यनि. शोषः
 द. (तु. आन.) । एतदनु गप. (५६२७) 'मणिप्र(ख्या)ण-ख्य- > -ख्यः' इत्यत्र शोषः कर्तव्यः । e) कस. उप.
 =वस- । f) =चधिर- । g) 'दिकाः इति अथवा. । h) =रत्नमध- । i) 'गप^० इति निसा. ? 'रागाः परिग्रहः' इत्येवं
 द्विपदपरः शोषः द. (तु. अथवा.) । j) रो^० इति निसा. यनि. शोषः द. (तु. निसा. संदि., अथवा.) ।

रागाद्य(दि-श्र)संभव- ये
जाद ६, ५१.
रागा(ग-श्र)घ- -घा: वरा ३,
२४.
रागा(ग-श्र)सुरजना- -ना महा
४, १३२.
रागा(ग-श्र)घ- -धम् मै ४,
२; मैत्रि ४, २.
रागिन्- -मिणः महा ३, १५;
-मिणाम् सांस् ६, ५१; -गी गी
१८, २७.
रागो(ग-उ)पहत- -ते सांस् ४,
२५.
रागो(ग-उ)पहति- -ति: सांस्
३, २०१^b.
राराग-
राग(स>)शा- -शा सार
२३४: ८.
राग-रङ्ग-सुगन्ध-रस-वीणा-
धेयु-प्रणालिका- -कया सार
२२९: २१.
राराग-
राराग-मुक्त- -क्तम् पा ७, १.
१रथ^a- -णाय मना १, १२५^a.
२रथ^a- -णाय गी २, ३५; -णे गी १,
४६; ११, ३४.
रण-समुद्यम- -मे गी १, २२.
रत- , १-परति- /रथ् द.
रत्न¹⁶- -अम् महाद, २०; -जाति ध्या
१०५; इ १८: ११; सार २५८:
९; मित्र १, १२५¹⁶; -वे महा ४,
१३; जाद १, ११.
रत्न-कर्मभूषण-उज्ज्वलित-कुण्ड-
ल- -लाभ्याम् सार २४४: १०.

रत्न-सचि(त>)सा- -ता सार
२२१: १७; २६७: १८.
रत्न-गौरा(र-श्र)म- -मम् ध्या
३१^d.
रत्न-घट- -शै: सौ ३७. -
रत्न-चित्र- -त्रे सार २, ४४.
रत्न-जटित, सा- -ता: सार २६९: ५;
-तानि सार २७०: ११.
रत्नजटित-दोला- -लायाम् सार
२७१: २१.
रत्न-जटि(ल>)ला- -ला: सार
२३३: ७.
रत्न-द्वीप- -पाय त्रिवि ७, ४८.
रत्न-धा- -धा: वृ ६, ४, २७५¹.
रत्नधा-तम- -मम् २ प्र ३६:
१७५¹.
रत्न-धातु-
रत्नधातु-मय- -य: सार २५८:
१८.
रत्नधातुमय-छतौ(ता-श्रो)-
पथि- -धय: सार २७६: १८.
रत्न-पङ्कज-सपथ- -ग- गम् गोपू९
रत्न-परिधि- -धियु सार २८८: ७.
रत्न-पीठ- -ठम् त्रिता ५, २१.
रत्न-पूरित- -ता: वरा ५, ३०^d.
रत्न-प्रभा-मण्डल- -ळम् मं २, १,
१०¹.
रत्न-सखो(द-उ)भय-त(द>)टी-
-टी सार २६७: २१.
रत्न-मण्डप-मध्यम- -मे सु १, १,
१^m.
रत्न-मण्डप- -पाय त्रिवि ७, ४८^m.
रत्न-मय- -य: सार २२१: २०.
रत्नमय-कुण्ड- -ळ्येपु सार

२२२: १८.
रत्न-माला-
रत्नमालिन्- -ली रापू ४, ७.
रत्न-रूप- -पम् सिधि ३८३: ३.
रत्न-विषय- -य: ते ६, ८९.
रत्न-वीथि- -धियु सार २७०: २२¹.
रत्न-वेदिका- -का मं २, २८.
रत्न-संपूर्(र्ण>)र्णा- -र्णाम् शि ६,
२२८.
रत्न-सातु-श्लिखर- -रेपु राध २३: ४
रत्न-सिंहासन- -नाथ त्रिवि ७, ४८.
रत्न-सोपान-संघलि(त>)सा-
-ता सार २७१: १२.
रत्न-हाटक-
रत्नहाटक-मय- -यानि सार
२७६: १९.
रत्ना(ल-श्र)दि- -दे: राज ५, १४.
रत्ना(ल-श्र)लवाल- -लै: सार
२२४: २३.
रत्ना(ल-श्र)वली-सचि(त>)ता-
-ता सार २७१: १५.
रत्ना(ल-श्र)वली-सृपि(त>)ता-
-ता सार २७२: ६.
रत्ना(ल-श्र)सन- -नम् सार २३४:
३; -ने रापू ५, २.
रत्नासन-प्रदान- -नेन सिधि, १६.
रत्नौ(ल-श्र)घा(घ-श्र)वद्ध- -मौ-
-लि- -लि: सौ १, ११¹.
रत्ना /रथ् द.
रथ¹⁶- -य: छां ४, १६, ३; ५; मै २,
९; मैत्रि २, ६; वना ३¹; ते
६, १०¹; प्रा ३, १; ४, १¹; इ
१८: १२; -थम् क १, ३, ३; प्र
६, १; वृ ४, २, १; अना ३;

a) °नम् इति अञ्जा. । b) °गाव° इति पा.१ यनि. शोष: द. । c) °पान- । d) विप. =रमणीय- ।
 वेपथ् यद. । e) अथ १०, ९, १ । f) =संप्राम- । वेपथ् यद. । g) वेपथ् यद. । h) रत्नगौ° इति निसा., 'रत्नगौराङ्गम्'
 इति व आन., j.c. । i) अथ १, १६४, ४५ । j) अथ १, १, १ । k) रत्नम्° इति अञ्जा. संदि. । l) नवरत्न° इति निसा.,
 अञ्जा. संदि. । m) °ण्ड° इति निसा., j.c. । n) मणिम° इति निसा. । o) °वि° इति पा.१ यनि. शोष: द. ।
 p) रत्नौ° इति निसा. यनि. शोष: द. (तु. अञ्जा.). । q) °धप° इति निसा. (तु. आन., अञ्जा., j.c.). 'रथ: पथि' इति
 पदद्वयपर: शोष: द. । r) 'जगत्' इति अञ्जा. संदि. ।

पैष्ठ, १; इ १८: १५; १७; मवर, १०; गी १, २१; -यस्य कौ ३, ९; शि ६, १४९; १७७; -या; -यान् वृष्ठ, ३, १०; -येन अनाडे; कौ १, ४; वा १६; व ४३: ७: ७५^०.
रथ-क(ल्य>)ञ्चा^० -ञ्चाम् छाग २४: २०.

रथ-क्रान्ति>न्ता- -ङ्^०न्ते मना १, ८; ऊ ६३: ७; व ४६४: ९.

रथ-चक्र- -क्रस्य वृ ५, १०, १; -क्रे कौ १, ४.

रथ-नाभि- -भौ प्र २, ६; ६, ६; सुं २, २, ६; वृ २, ५, १५; १शिसं ५५^०; २शिसं ६५^०.

रथ-भेमि- -भौ वृ २, ५, १५.

रथ-पति- -ति: अना ३^०.

रथ-मध्य- -ध्ये शि ६, १३४.

रथ-यात्रा- -त्राम् शि ६, १३३; १८५; -त्रायाम् शि ६, १२५; १८१; १८६.

रथ-योग- -गा; -नान् वृ ४, ३, १०.

रथ-श्रेणि- -णय: छां ५, १४, १.

रथ-(स्थ>)स्था- -स्थाम् शि ६, ११८

रथा(थ-आ)दि- -दीनाम् गौ २, ३.

रथा(थ-आ)रूढ- -ढम् रार २, ७२.

रथो(थ-उ)त्तम- -मम् गी १, २४.

रथो(थ-उ)पस्थ- -स्थे गी १, ४७.

रथित- -त: मैत्रि ४, ४.

रथिन्- -थितम् क १, ३, ३; पैष्ठ, १; मव २, १०.

रथी^०-

रथी-तर^०-

राथीतर^०- -र: तै १, ९, १.

राथीतरी-
राथीतरी-पुत्र- -त्र:,
-त्रात् वृ ६, ५, २.

र(प्य>)ध्या^०- -ध्यायाम् १संन्या २, १९.

रथन्तर^०- -रम् छां २, १२, १; २;

मैत्रि ७, १; मना २, ७५^०; मैत्रि

९; -रे वृ ९.

√रद्

रद^०-

रदा(द-आ)वली- -ली यु १४.

√रघ्(°वधा.), >न्घ्, निघ, रघम् सूता २, ११५^०.

रन्धयत्- -यन् सूता २, ११५^०.

रन्ध^०- -न्धे पा ३, १.

रन्त^०- √रम् द.

√रभ्, >म्भ(°वधा.)

रभस्^०- -मसाम् यो १, ७२.

१र(म्भ>)म्भा^०-

रम्भा-स्तम्भ- -म्भेन ते ६, ७८.

२र(म्भ>)म्भा^०-

रम्भा(म्भा-आ)दि- -दिभि: रा ४२४: १७.

रम्भा-संभोग- -गाम् रा ४२३:

१६; ४२४: २.

√रम्, >रमि, रमते छां ३, १७, १; २;

७, १२, १^०; ८, १२, ५; वृ १, ४,

३; मना २, ८०^०; महा १, १^०;

४, ३८; योशि ३, २४; ६, ६८;

अत्र ५, ९६; १आ ११; जाद १,

२२; सी २, १; सार २२०: १४;

२२१: १०; २३१: १५; २३२:

४; शि ६, १८६^०; यु ३३; पिम्

६, १९; वउ ५, ४६^०; गी ५, २२;

१८, ३६; रमन्ते वृ ५, १२, १^०;

मना २, ७८^०; रार ५, ३; रार

१, ६; महा ४, १८; रमन्ति नाप

४, ३०; गी १०, ९; रमे ते ३,

२३; २५; रमताम् सर ३, १;

रमन्तु मना २, ६३^०; भरमत

मै २, ६^०; मैत्रि २, ६^०; रमेत क

१, १, २८; रमेत् १योत ७६;

२योत १, ३; २कौल १२.

रेमे वृ १, ४, ३; रंस्ये ते ३, २४.

५^०- रम् वृ ५, १२, १^०; ५^०.

रत, ता- -त: ऊं १; वरा ३, २५; शि

६, १५७; -तम् सु १, २, ६; -ता

वि २७; -ता: ई ९; १२; वृ ४,

४, १०; वरा १, १७; सार २३०:

१५; गी ५, २५; १२, ४.

१रति- -तये पा ७, १०; ८, ३; -ति:

मै ३, ५; मैत्रि ३, ५; कौ ३, ५;

महा ४, ६२; सार २२०: ९;

२५०: ४; १३; १४; २५७: २;

५; २८७: १३; -तिम् कौ १,

७; २, १५^०; ३, ६; ७; ८; -ते: कौ

३, ८; -तौ सार २५०: ४; २५१:

१४; -स्या प्र १, १३^०.

२रति^०- -त्या सार २४२: ७.

३रति^०- -ति: तारा ८३: २४.

४रति^०- -ति(ईति?) नापु ५, २.

५रति^०- -ति: रापु ४, ६३^०.

रति-कलना- -नया सार

२५७: ३.

- a) श्र १, ३५, २ । b) पच । उप. नैप्र. = कृत्या- [कर्मन्- (तु. वे. °थचर्याम् इति पाप्मे.)] । c) तैश्चा १०, १, ८ । d) मा ३४, ५ । e) निसा पा.१ [तु. आन. °पथ° (तु. J.C.), अञ्चा. °पथि] यनि. शोध: द्र. । f) पावा ५, २, १०९ । g) व्यु. ई = सामविशेष- । वैप१ यद. । h) तैश्चा १०, ६३, १ । i) 'रथम्' इति पा.१ यनि. शोध: द्र. (तु. श्र १, ५०, १३) । j) श्र १, ५०, १३ । k) नाप. = अनाष्टि- (तु. पाटी) । अनच्यपि रक्ति प्र. नुम् उर्सं. (पा ७, १, ६९) । l) वैप१ यद. । m) वा. क्वि. द्र. । n) धा. अर्थ: ? = कदली- । o) धा. अर्थ: ? = अथरपविशेष- । (p) तैश्चा १०, ६४, १ । q) 'रमेत' इति अञ्चा. । r) पा.१ 'रमन्ते' इति शोध: द्र. । s) तैश्चा १०, ६२, १^० । t) तैश्चाश्चा १०, ६३ । u) अनुपपदेऽपि ड: प्र. उर्सं. (पा ३, २, ४८) । v) = कामपत्नी- । w) = आवरणदेवताविशेष- । x) = कलाविशेष- । y) पा.१ यनि. शोध: द्र. । z) = एकार-बीजाक्षर- । a') रा° इति निसा., अञ्चा. यनि. शोध: द्र. (तु. आन.) ।

रति-कला-कौमल-ल्लाः सार
२७३ : १४.
रति-कला-कौतुक-कानि सार
२३८ : ३; २७३ : ३१.
रति-बला-भाव-स्थान-
भानि सार २६२ : १५.
रति-कला(ला-अ)भि(ज्) >
आ^१ - आ सार २८४ : १४.
रति-कलो(ल)ला^१ - ला
सार २८४ : २१.
रति-केलि-कला-कोवि(व) >
दा - दाम् सार २३२ : १०.
रति-केलि-कला-कौतुका-
(क-आ)म्न-स्मने सार
२७७ : ८.
रति-क्रीडा-डायाम् सार
२३९ : ७.
रति-नाति-योग्यता-ता सार
२८८ : २३.
रति-गुणा(य-आ)ह्व-व्याः
सार २७९ : ७.
रति-दावृ-वै सार २७७ : ८.
रतिदासी - श्री सार
२६३ : २.
रति-दायक-सुरता(त-आ)-
नन्द-न्दाय सार २४६ : २३.
रति-प्रसन्न-श्रेण सार २४६ :
१५.
रति-धिय-न्याय सार २६१ : २.
रति-प्रीति-तिः हं ८; -तिम्
सार २७५ : ७.
रति-मेमा(म-आ)नन्द-
स्थान-ने सार २६७ : ४.
रति-भर-रसा(स-आ)कल्प-
मुकुलित-नय(न)जा-जा
सार २८४ : २१.
रति-भाव-वै सार २२९ : २.

रति-म(वृ)ती^१ - ती सार
२६२ : २३.
रति-मन्दिर-रे सार २३७ :
१४.
रति-मात्र-प्रथ् मैत्रि ७, ९.
रति-योग्यता-भाव-वम् सार
२७९ : १०.
रति-रत्न-ज्ञाः सार २३७ : २०.
रति-रस-भाव-वेन सार
२४६ : १५.
रतिरसमाव-भेद-ध्याला-
(न-आ)पन्न-त्तः सार २५९ :
२२.
रति-रस-भावता-नया सार
२७३ : २.
रति-रस-सन्न-घ्राः सार
२७४ : ८.
रति-रस-सुरता(त-आ)नन्द-
न्दाः सार २२९ : १०.
रति-व(वृ)ती^१ - ती सार
२३८ : ३; २८४ : २०.
रति-शङ्कार-रम् सार २८२ :
१२.
रति-शङ्कार-रस-स्यान-नम्
सार २८७ : १.
रति-सङ्ग-ङ्गः सार २५७ : ३.
रति-संभावित-सुख-संब-
लिता(न-आ)म्न-स्मने
सार २५१ : १७.
रति-संभोगा(म-म)विकला-
कौतुक-कानि सार २२८ : १०.
रति-सुख-सम् सार २७२ :
५; २८४ : २; २१; २८६ : १७.
रति-सुख-संपत्ति-प्रतिकृ-
(ज)जा-जा सार २७२ : ७.
रति-सुख-संपत्त-प्र(द) >
दा-दा सार २६३ : ३.

रति-सिवा-वापाम् सार २४९ :
१२.
रतिसिवा-कथा-धामाम्
सार २४९ : १२.
रत्नौ(ति-श्री)वध-पराश-नम्
इ १४ : १०.
रति-प्रीति-मनोभ(व)जा-
वाः पी ४२२ : १४; छुषु १५.
रत्ना वृ ४, ३, १५-१७; ३४.
रन्तु-न्तारम् शब्ध ६.
४रम-
४रमा^१ - माम् सार २, ६७^१;
राप् ४, ४३; ४६.
रमा-बीज-जम् ६९.
रमा-माया-ये राप् ४, ४३.
रमामाया-बीज-वे
सार ३, १.
४रम-
४रमा^१ - मया सार २२० :
१५; पं १; सार २५७ : २०.
रमा-पति-तिम् वरा २, १.
रमा-पीठ-उम् सौ १, २.
रमा-मानस-ईस-साय
गोप् ३७.
रमा-रमण^१ - ण सार
२७४ : ४; -णः सार २२० : २०.
४रम-
४रमा^१ - मा सुवा ११^१.
४रम-
४रमा^१ - राय राप् ४,
१३^४.
रमा-सहित-तः राप् ५, ९.
रमण-णम् सार २६० : १२; -णे
सार २५१ : २.
रमण-योग्य-वम् सार
२६२ : ४.

a) 'रन्ता' इति अत्रयः । b) धा. अर्थः! = श्री-बीजाक्षर- । c) *मा इति निरा. यनि. शोधः द. (तु. अत्रया.) । d) धा. अर्थः! = लक्ष्मी- । e) उप. कर्तारि कृत् । f) धा. अर्थः! = नाडीविरोध- । g) धा. अर्थः! = सीता- । h) राममथ^१ (तु. नादी.) इति भ्रान्, *म-अ^१ इति वस. इति पञ्चान्तरमपि ।

रमण-रस-रमण-णे सार
२३९ : ६.

रमण-लीला-लाम् सार २३७ :
१०.

रमणलीला(ला-अ)धिष्ठान-
-न्म् सार २६० : ९:

रमणलीला-स्थान- -न्म्
सार २५९ : ४.

रमण-संपद्-पदि सार २४९ : ९.

रमण-स-रस- -सा: सार २६२ :
१२.

रमण-सुख-बहुभ- -भान्याम्
सार २४७ : १८.

रमण-सेवा- -वायाम् सार
२४९ : १०.

रमण-स्थल- -लानि सार २८१ :
१९.

रमण-स्थान- -न्म् सार २२१ :
२१; २६२ : ११; २८१ : २३;

-नानि सार २२३ : १; २७१ : ५.

रमण(ण-अ)नन्द- -न्द: सार
२४६ : ९; -न्दात् सार २३९ : १९;
२५६ : १६.

रमणानन्द- (ज्ञ>)ज्ञा- -ज्ञा
सार २६८ : १०.

रमणानन्द-युत- -त: सार
२४६ : ८.

रमणानन्द-यो(स्य>)भ्या-
-भ्या: सार २६७ : ४.

रमणानन्द-रूप- -पेण सार
२४० : ८.

रमणा(ण-अ)नन्द- -न्द:
सार २३९ : १८; २४६ : ८; ९;

२८१ : २३; -न्दम् सार २६० :
१८; २८० : ४; -न्दे सार २५० :

४; -न्देन सार २३९ : २०.

रमणानन्द-दर्शन-योग्य-
-भ्या: सार २४९ : ७; ८.

रमणानन्द-दर्शन-योग्यता-
-ताम् सार २४९ : १०.

रमणानन्द-लोक-स्पर्शन-
-न्म् सार २३२ : ९.

रमणानन्द-सखी-समूह-
-हम् सार २८० : ३.

रमणानन्द-सुख-दातृ- -ये
सार २६१ : ४.

रमणानन्द-सुप्त-संभोग-
-गाय सार २६६ : १२.

√रमणानन्दीय्, रमणा-
नन्दीयति सार २४५ : १३.

रमणीय,या- -यम् त्रिता १,
५४; -याम् छां ५, १०, ७.

रमणीय-चरण- -णा: छां
५, १०, ७.

रमत्- -मताम् नाप ४, २६; -मत्
१योत १३२; -मन्ताम् पा७, १०.

रममाण- -ण: छां ८, १२, ३; -णम्
नाद ३७; सार २७५ : १२.

*रमया-

*रमयां/कृ, रमयांचक्रु: सार
२४१ : २२; २३.

रम्य,भ्या- -म्यम् महा २, ५५; ३,
४०; अन्न ५, ७०; ११८; या २,

६; सार २८७ : १७; -भ्याम् गोड
२७; -भ्याणाम् महा ६, २४;

-भ्ये अना १८; सु १, १, १; सार
२६० : ११; २शिसं २५; शि ७,

१२८.

रम्य-ता- -ता महा ३, ३१.

रम्य-देश- -ने शां १, ५.

१रामा^०- -म^d राष्ट्र ४, १; -म
त्रिवि ७, ३४; सार २, ५६; ५८;

कलि २^५; सु १, १, ४-६; १०;
१५; राधा १, ३; -म: सुधा ७;

त्रिवि ७, ४१; सार १, ६^१; ७^१;
२, २; २६-०८; ४२; ४९; ८२;

८७; ५, ३९^१; १२९^१; १३;
१७^१; राष्ट्र १, २; ३, १; ४, २; ५;

१८; २७; राष्ट्र २, २; ३, १^१; ५,
१६; २८; अप्या ७०; ता ३, ८;

कृ १२; गोड १६१^०; ३५; राधा
१, १; व ४६३: ११; वपू २, ४;

गो १०, ३१; -मस्य राष्ट्र १, ७;
२, ३२; ३७^१; ४८; ५५; ६२;

७२; ३, १; ४, ४; १२; राष्ट्र ५,
८; सु १, १, ४; -मस्य राष्ट्र १,

७^१; राष्ट्र ४, ५७; ६४; गोड
२५; -माय सुधा ७; त्रिवि ७,

३०; ३१; ४६; राष्ट्र २, २९; ३०;
५९; ६४; ६६; राष्ट्र ४, १२; १३;

राष्ट्र ५, २; अप्या ७०; गोपू ३७;
गोड ६४; सार २६१ : ६; -मे

राष्ट्र ४, २१; -मेण राष्ट्र १, ७;
राष्ट्र ४, २६^१.

राम-कार्य-धुरंधर- -र: राष्ट्र ४,
१३.

राम-कृष्ण-

रामकृष्ण-गायत्री-द्वय-
घर्ष-चतुष्टय- -यम् त्रिवि ७,
४१.

रामकृष्ण-द्वारा(श-अ)-
क्षर-मन्त्र- -न्त्रौ त्रिवि ७, ३३.

रामकृष्ण-पद्-अक्षर-
मन्त्र- -न्त्रौ त्रिवि ७, ३०.

रामकृष्णा(ण-अ)तुष्टुभ-
मन्त्र- -न्त्रौ त्रिवि ७, ४०.

रामकृष्णा(ण-अ)घ(दि-अ)-
वतार- -रेपु त्रिवि २, १३.

राम-कृष्ण-श्रीकरा(र-अ)ष्टा-
(ष्ट-अ)क्षर-मन्त्र- -न्त्रा: त्रिवि
७, ३१.

राम-कृष्ण-हयग्रीव-नवा-
(व-अ)क्षर-मन्त्र- -न्त्रा: त्रिवि
७, ३२.

a) सप्तस. । b) वस. । c) =दाशरथि-, रकृष्ण-, बलराम-, परशुराम-, पार्यद्वितीय- । d) 'राम->
-माय' इत्यस्य प्रकृत्यंशः पराष्टुभो भवति । e) तु. सस्य. टि. 'उवायस-> -यान्' । f) *माय इति श्रान. ।

राम-चन्द्र- -न्द्रः रा२, १०५; ५, १७; रा३ ३, १; नाप ५, ७; -न्द्रम् कृ १; लां २१४: २; -न्द्रस्य रा२, १; रा३ ५, १; -न्द्राय त्रिवि ७, ३२; रा२ २, ७५; नाप ५, १०.

राम-चन्द्र-भद्र- -द्रौ रा२, ५४

राम-तपन^{१०}- -नम् मु१, १, ३५

राम-नामन्- -म रापू १, ३;

-मनि रा२ ५, १०.

राम-पत्नी- -नीम् रापू ४, १७.

राम-पद- -देन रापू १, ६.

राम-पुरी^१- -री राधा ४, ५.

राम-बीज- -जम् रा२ ३, १; -जे रा२ ५, ९.

रामबीज-स्थ- -स्थम् रा२ ५, १०; रापू २, ३.

राम-भद्र^१- -न्द्र त्रिवि ७, ४०;

रा२ २, ८१; रापू ४, १५; -द्रः

रा२ २, ११; २२; रा३ ३, ११^२;

५, ३६; -द्रम् रा२ २, ८५.

राम-मन्त्र- -न्त्रः रा२ ४, ११;

रा३ ५, ४; -न्त्रम् रा२ १, ७^३;

-न्त्रस्य रा३ ५, १३; -न्त्राणाम्

रा२ ५, १७; -न्त्रेषु रा२ ५, १.

राममन्त्र-प्रभाव-

राममन्त्रप्रभाव-सप्त(>)

रा३ ५, १०.

राममन्त्रा(न्त्र-अ)नुकीर्तन-

-नात् रा३ ५, ९.

राममन्त्रा(न्त्र-अ)र्थ-

विज्ञान-

राममन्त्रार्थविज्ञानिन्-

-नी रा२ ५, १६.

राम-मूर्ति- -तिः गो३ २५०.

राम-रुद्रमण- -णी रापू ४, २०.

राम-वैखानस-पर्वत^१- -तः सो २०.

राम-शाता(त-अ)भिधान- -नम् रा२ १, ९.

राम-पद्मक्षरी(री-इ)त्यादि-

-दिभिः रा२ १, ९०.

राम-सप्त(म-अ)क्षर- -रः रा२ २, ३९.

राम-सेवक- -कम् रा२ २, १०६;

४, ११.

राम-सेवा-परायण- -णम् रा२ २, १०२; १०४; १०६.

रामा(म-अ)ख्या- -ख्या रापू १, ५

रामा(म-अ)ङ्ग- -ङ्गम् रा२ १, ७.

रामा(म-अ)दि- -दिः रा२ २, ८८

रामा(म-अ)द्य- -द्याः सार २५८: २.

रामा(म-अ)निरुद्ध-प्रणुज्ञ- -ज्ञैः गो३ २८^१.

रामा(म-अ)नुज^१- -जः सं १६.

रामा(म-अ)भिरा(म->)मा-

-माम् रा२ २, ३३.

रामा(म-अ)य(न->)ण^१- -णः अहैभा ९.

रामा(म-अ)राधन-तत्पर-

-रम् रा२ २, १०१.

रामा(म-अ)लोकन-तत्पर(>)-

रा- -राम् रा२ २, १७.

रामे(म-ई)धर-क्षेत्र^१- -त्रम् म ४९: २.

२रा(म->)मा^१- -माः क१, १, २५. १-धरम्-रमण-, रमणीय-, √रमणान्दीय्, रमत्- √रम् द.

रमन्ताम्^१ पा ८, ३.

रममाण-, -रमया-, १-धरमा-, रम्य- √रम् द.

रय- √री द.

रयि^१- -यिः प्र १, ५^३; ९; ११; १३; २,

५; छा^१ ५, १६, १; १८, २; मना२,

४५९^३; मुद्र ३; पा ७, ३; -यिम्

प्र १, ४; जा४९^३; नाप ३, ७७९^३;

पप ४१८: ११९^३; या १, १९^३;

पा ७, १; १०; -यीणाम् मना २,

५४९^३; वा १४^३; पा ६, ८९^३;

७, ९; लि ३१०: ३९^३.

रयि-द- -दम् पा ७, २.

रयि-द- -दम् पा ७, १.

रयि-भूत-भूत- -तम् पा ७, ९.

रयि-मत्- -मत् पा ७, ३; ९, १;

-मात् छा^१ ५, १६, १.

रयिमत्-सुपण्य- -ण्यम् पा ७,

१०.

रयिमत्-सुर- -त्रः पा ७, ९.

रयि-वत्- -वन्तः सूता १, २०.

रयि-(स्थ->)ह- -छाः मना२, ७९९^३.

रयक^१- -कैः शि ६, १५२.

रयि^१- -यये सूता ४, ३; -विः ते २,

१७; ४, १३; द्या ८८; त्रिवि ६८;

योचू ६२; १२१; शां १, ४^३;

योशि ६, ७०; यो १, ७०^३; १आ

१५; १अव ६; ४ह ४; जाद ४,

४०; अहै ३; इ १५: २२; सूता

१, १८; गी १०, २१; १३, ३३;

अ) = तदाख्योपनिषद्विशेष-। b) °द्र इति निप्ता अख्या. च यति. शोधः द्र. (तु. श्रान. 'रामचन्द्र->

-न्द्रः' इति)। c) °मा सू° इति श्रान.। d) पूष. विप. [=रा-(<√राद्)+म-(<√महोय्)] इति उत्र.। e) °रेत्या°

इति अख्या. संदि.। f) रमाऽनिरुद्धः प्र° इति अख्या. संदि.। g) पूष. =तीर्थविशेष-। h) =स्त्री-। i) पा. वा.च.ई धूर्तः

=('धूर-धू->)धूर्धः (प्र३) इति शोधः? द्र.। पदं चैतत् 'प्रमूर्ति-मत्->-मन्तः' इत्यनेन समानाधिकरणं द.। एतद्वत्

यपू (द्र ९०, ५५०) 'अन्तः, प्रमूर्तिम्' इत्यत्र द्विपदे निर्देशे च शोधः कर्तव्यः (वित्. पाटी. अग्रयथा पा. वा. चेति)।

j) वप्र. वैपर. यद.। k) तैत्ति ३, ७, १४, ५। l) 'गिरः' इति श्र ३, २९, १०। m) श्र १०, १२१, १०। n) °यि°

इति बे.। o) श्र २, ४०, १। p) तैत्ति १०, ६३, १। q) व्यु.१ =मणि-। r) व्यु.१ =सूर्य-। s) तु. मपू. ६२७९. h।

-विणाप्या ९०; -विम्वष्टदरः
३; ज्ञेः सं २, २, ३; पाणु १, ८;
वरा ३, २०.

रवि-कोटि-दीप्त- -सम् ध्या २४^४.

रवि-चन्द्र-प्रहा(ह-धा)दि- -दयः
पाणु १, २.

रवि-गुल्य-रूप- -पः श्वे ५, ८.

रवि-तेजस्- -जः अद्वै ३.

रवि-मध्य- -प्ये मैत्रि ६, ३८.

रवि-रश्मि-मण्डल(>)ली- -ली
कृति २.

रवि-स्थान-स्थित- -तम् योचू ६१.

रवि-सोम- -सौ वज ५, २७.

रवी(वि-इ)न्दु-मण्डल-द्वितय-
-यम् अता ९.

रशाना^{11b}- -ना प्रा ३-४, १.

रश्मि^०- -श्मयः सुं १, २, ५; छां ३, १,
२; २-५, १; ५, ४, १; ८, ६, २; वृ
५, ५, २; ६, २, ९; मै २, ९; मैत्रि २,
६; ६, ९; ३०^१; मना २, १३, २९^४;

-श्मिभिः सुं १, २, ६; छां ८, ६,
५; वृ ५, ५, २; मै २, ९; मैत्रि २,
६; ६, १२; ३१; ३७; मना २,
७९^१; श्वि १५; ए ८^१; अरु
३३^१; -श्मिषु प्र १, ६^१; नी २,
२०^१; -श्मीन् ई १६; छां १,
५, २; वृ ५, १५, १९^१; अना ५^१.

रश्मि-ज्वाला-समाकुल- -लम्
योशि १, ७३.

रश्मि-शत- -तम् मैत्रि ६, ३०.

रश्म्य(रिम-अ)नुसारिन्- -री वस्
४, २, १८.

√रस्^०(वधा), >रसि, रसति गोपू ५.

रसयते प्र ४, २; वृ ४, ३, २५^१;
४, २; ५, १५; मै ५, ७; रसयति

मैत्रि ६, ७; रसयत् वृ ४, ३, २५;
३१; ५, १५; गोपू ४९^१.

रस^१- -सः प्र ४, ८; सुं २, १, ९; तै

२, ७, १; छां १, १, २; ३, १, ०; ३,

१, ३; २-५, २; ६, ९, २^१; वृ १, ३,

८; १९^१; २, ३, २^१-५^१; ३, ९, २८,

२; ६, ४, १; मैत्रि ५, २; ६, १३;

३१; ३५^१; ३७; गर्भ २; मना

१, १२^१; २, ३५^१; ३७^१;

६८^१; अशि ६, १७^१; शृजा २,

३; त्रिवि ७, ४४^१; शारी ८;

१तंया २, १७; प्रा १, ६^१; वरा

२, ७८; इ १४ : १८; १८ : ९;

सार २२१ : १०; २२७ : १०;

२३८ : १५; २३९ : १०; २४० :

२०; २४४ : ४; २४५ : १३;

१४; २५० : ५; २५४ : ११;

२७९ : १५; २९२ : १०; वट्ट

३१८; १७^१; निरु १, ३; वष्ट ६१ :

२३^१; वर १, २०; भव २, १७;

गौ २, ५९; ७, ८; -सम् क २,

१, ३; तै २, ७, १; छां ७, ७, १;

मना २, ३७^१; मै ५, ४; ते ३,

५७; ५, १०३; ६, ४८; १यौत

७१; सुद्र २; शां १, ४; अक्ष ५,

७३; कठ २३; जाद ९, ४; शा

११; इ १० : २०; २३ ३२ : ११;

सार २३५ : १७; २३९ : २२;

२४० : १२; २०; २७३ : १५;

१६; २७८ : १८; ४६१ : २१^१;

२२^१; -सम्-सम्^० पा ५, ७;

-सस्य वरा २, ७८; -साः छां ३,

५, ४^१; मना २, १२, १९^१; त्रिधा

२, ११; योचू ६८; भा ६; ९;

सार २८१ : ५; -साव् गर्भ २;

निरु १, ४; शि ६, २९; -साव्

छां ४, १७, १-३; ६, ९, १;

वृ ३, २, ४; सार २२४ : १८;

२५० : २०; -सानाम् छां १,

१, ३; ३, ५, ४; वृ २, ४, ११; ४,

५, १२; युषा १३; ध्या ९२;

योचू ६५; इ १४ : १८; १८ :

१०; -साय पा ५, ७; ७, ८; -से

वरा ५, ४८; सार २३९ : ७;

२४५ : १६; २८० : ११; -सेन

छां १, १, ९; ४, १७, ४-६; वृ ३,

२, ४; पदं ४^१; -सिषु महा ५,

६४; सार २६४ : ७.

रस-कला(ला-अ)भि(श>)शा^१-

-शा सार २३८ : ११.

रस-ग- -गाः सार २३१ : १२.

रस-गुण- -णः त्रिधा १, ९.

रस-घन- -नः वृ ४, ५, १३.

रस-चेतस्- -तसि वरा २, ७९.

रस-तन्मात्र-वेदन- -नम् महा

५, १५०.

रस-तम- -मः छां १, १, ३.

रस-तेजस्- -जसी शृजा २, १.

रस-(व>)दा^१- -दा सार २८४ :

१६.

रस-दाह-भोगा(ग-अ)भि-

(श>)शा^१- -शा सार २८४ :

१६.

रस-बुद्धि-विवर्जित- -तः पित्र

६, १८.

रस-भाव- -वेन सार २२२ : ६.

रस-भाव-(श>)शा^१- -शा

सार २३८ : ११.

रस-भेद- -दान् सार २७० :

१३.

- a) °सिम् इति निसा. । b) वैपश् यद्र. । c) वैपश् यद्र. । इह =किरण-, प्रग्रह-, नाडी- प्रष्ट. । d) तैआ १०, ११, २ । e) तैआ १०, ६३, १ । f) °दिमम् इति पा. १ यति. शोधः द्र. । g) तैआ १, २७, ५ । h) मा १३, ८ । i) का ४०, १, १६ । j) °दिमम् इति अन्धा. संदि. । k) °वित् इति आन. । l) =आस्वादिशेष-, रसनेन्द्रिय-, सार-, जल-, अक्षुराग-, पारद-, शृङ्गार- प्रष्ट. । m) तैआ १०, १५, १ । n) ष्ट १०, ९, २ । o) तैआ १०, १५, १ । p) =रसानां रसः इति पाटी. । q) तैआ १०, १०, १ ।

रस-म(प्र>)प्रा- -प्रा सार
 २८७ : ६.
 रस-मागे- -गीः सार २८८ : १० ;
 -गेम् सार २७८ : १७ ; २९२।
 ११ ; गी सार २३१ : ८.
 रसमार्ग-रूप(प>)पा- -पा
 सार २२७ : ९.
 रसमार्ग-भ्यतिरिक्त- -क्ताः
 सार २८३ : ५.
 रसमार्गिन्- -रिगिणः सार
 २३१ : ३ ; २८१ : १५ ; -रिगिणाम्
 सार २५० : ९.
 रसमार्गिणी- -णी सार
 २३० : ३.
 रसमार्गीय- -याः सार २२६ :
 २० ; २२७ : १२ ; २३१ : ३ ;
 २७९ : ५ ; -याणाम् सार २२७ :
 ९ ; २३० : ३.
 रसमार्गी(र्ग-उ)वासक- -काः
 सार २४१ : १३.
 रस-रह-लीला- -लाम् सार
 २२९ : १९.
 रस-रमणा(स-आ)नन्द- -न्दे
 सार २३९ : ९.
 रस-रहस्य-विद्या- -द्याम् सार
 २४४ : ५.
 रस-रूप- -रम् सार २७७ : १.
 रसरूपिन्- -रिपिणः सार
 २७९ : १७ ; -रिपिणे सार २४७ : ८.
 रसरूपिणी- -णी सार
 २८३ : ४ ; -णीम् सार २२० :
 १८.
 रस-रम्पट-
 रसरम्पट-परिपूर्ण-देह-
 दाव-रूप-
 रसरम्पटपरिपूर्णदेह-
 दावृत्तिन्- -रिपिणे सार २७७ : ७.
 रस-लीला- -लाम् सार २३० :

२० ; २३६ : ४ ; -लायाः सार
 २३६ : ४ ; ६ ; -लायाम् सार
 २२२ : ४^१ ; २२७ : ११^१ ; २३५ :
 २३.
 रसलीला-प्रपन्न- -न्नः सार
 २३६ : २.
 रसलीला-रति- -रतिम् सार
 २२९ : ११.
 रस-व(र>)ती- -ती सार
 २६८ : ६१^१ ; -त्यः गोउ ९.
 रस-वर्जम् गी २, ५९.
 रस-वृद्धि- -द्धिः वरा ५, ४८.
 रस-शक्ति- -क्तिः वृजा २, २.
 रस-संयोग- -गे सार २४५ : १५.
 रस-संवलित,ता- -तम् सार
 २२० : १३ ; -ताः सार २७६ :
 ४ ; १८.
 रस-संख्यात- -तः पा ५, ७.
 रस-संभोगा(ग-आ)रमन्-
 -रमने सार २५१ : १८.
 रस-साक्षिन्- -क्षिणे सार
 २४७ : ९.
 रस-सुरत-भोग-(ज्ञ>)ज्ञा-
 -ज्ञा सार २८५ : ८.
 रसा(स-आ)कर्पि(न>)णी-
 -णी आद्य ३९५ : ७.
 रसा(स-आ)रमक- -कः सार
 २२० : १८ ; गी १५, १३.
 रसा(स-आ)रमन्- -रमने सार
 २७७ : २ ; ७.
 रसा(स-आ)दि- -द्वयः गी ३,
 ११ ; -दि त्रिना २, ८३^३ ; -दिषु
 शां १, ४.
 रसादि-क- -कम् ते ६, ५३.
 रसा(स-आ)नन्द-स्वरूप- -पाः
 सार २९० : ६.
 रसा(म-अ)व- -साङ्गयः गोउ ९.
 रसा(स-अ)यन- -नम् १ संन्या

२, ८६.
 रसायन-पान- -नेन महा ४,
 ३१.
 रसा(स-आ)विष्ट-विच- -चः
 सार २५९ : ४.
 रसा(स-आ)वैश- -वैश सार
 २३९ : ११.
 रसा(स-आ)शय- -ये त्रिना २,
 १४.
 रसा(स-अ)सृष्ट-मांस-मेदी-
 (दस्-अ)स्थि-मजा-शुक्ल-
 -कृानि त्रिना २, ५.
 रसा(स-आ)स्वाद- -दाव् सर
 ३, ३०.
 रसा(स-आ)स्वादन- -नम् नाप
 ६, १.
 रसिक,का- -का सार २८८ : ६.
 रसिक-क्षिरो-मणि- -णिः
 सार २३८ : १६ ; -णिना सार
 २४० : ५.
 रसिका(क-आ)नन्द,न्दा-
 -न्दः सार २२५ : १४ ; १७ ; २१ ;
 २२ ; २२९ : ६ ; २३१ : १९ ;
 २३६ : १० ; २४० : १८ ; २४१ :
 ९ ; ११ ; १५ ; २१ ; २४२ : १० ;
 २४३ : ७ ; २४४ : १५ ; २४६ :
 ९^१ ; २५० : १९ ; २५१ : १ ;
 २५८ : ६ ; १८ ; २६२, ४ ; २६८ :
 १४ ; २६९ : ४ ; ५ ; १० ; १३ ; १९ ;
 २७१ : ८ ; २७३ : २२ ; २७४ :
 १५ ; २७७ : २२ ; २७८ : ४ ; २८४ :
 ३३ ; २८८ : ४ ; १२ ; -न्दम् सार
 २२६ : ७ ; २२७ : ८ ; २३६ : ७ ;
 २० ; २३८ : ५ ; १३ ; २४१ : ४ ;
 २४२ : ९ ; २६६ : २ ; २६८ : १७ ;
 २० ; २६९ : १८ ; २८२ : १३ ;
 २८५ : ३ ; -न्द्वय सार २२१ :
 ६ ; ७ ; २१ ; २२६ : १० ; ११ ;

a) वस>कस>वस । b) °दीनि इति निसा, 'रसानि' इति अच्चा. संदि. । c) °साङ्गयाम् इति निसा ।
 d) =जलाशय- । e) °क्राणि इति निसा ।

२३२: १६; २४५: १०; २६२: ६; ९; २६५: १७; २६८: २; २७४: १४; २७५: १; २८५: ६; ९; न्दाम् सार २२१: ९; न्दाय सार २४७: १; २६१: १३; न्दे सार २४८: १३; १६; २४९: १; २५४: १०; २६१: १७; २६२: ५; न्देन सार २२०: १६; २२४: १९; २२५: १३; २२७: २१; २२८: १; २२९: १८; २३०: २०; २३४: १८; २४१: १२; २२; २४२: २; ८; १८; २५०: १७; २५२: ११; २५९: १७; २३; २६२: २१; २६७: २३; २७०: २; २७२: ३; २७३: १४; १९; २७५: १०; २७६: ७; २१; २८३: २०; २३; २८६: ३; ९; २८९: ६; ११; २९१: ४.
 रसिकानन्दी-न्दीम् सार २४८: २०.
 रसिकानन्द-क्रीडा-डायाम् सार २८८: ६.
 रसिकानन्द-पुरयो-(प-उ)त्तम-मा: सार २३२: ३; २३५: १९.
 रसिकानन्द-प्राथ्य-(ति-अ)र्थे-र्थे सार २३२: १४.
 रसिकानन्द-मार्ग-गौम् सार २३४: २२; २३५: ९.
 रसिकानन्द-रति-ति: सार २७६: ११.
 रसिकानन्द-रूप-यम् सार २७६: २३.
 रसिकानन्द-वचन-नात् सार २८५: ४.
 रसिकानन्द-विलास-वा(त्)>श्री-श्रीम् सार २३२: १०.
 रसिकानन्द-सिरो-

मणि-ण्ये सार २५१: १५;
 -णि: सार २५२: १४; २६८: ९; णो: सार २४९: १८.
 रसिकानन्द-शब्द-स्थान-नम् सार २२६: ३.
 रसिकानन्द-सोवक-का: सार २३६: १८.
 रसिकानन्द-स्वरूप-य: सार २८१: १६; यम् सार २३६: ११; पात् सार २२०: ५; पे सार २४०: १.
 रसिकानन्दै-(न्द-ए)क-कल-सुरत-त्तम् सार २४५: ६.
 रसिकानन्दो-(न्द-उ)पा-सक-क: सार २३५: ९; का: सार २३१: ४; २३६: १४; २४१: २; कानाम् सार २३४: १९; २३५: १९.
 रसौ-(स-ओ)पधि-कियाजाल-मन्त्रा(न्त्र-अ)भ्यासा(स-आ)-दि-साथन-नात् योति १, १५२.
 रस्य-स्यम् भव ४, १९; स्या: गौ १७, ८.
 रसन-नम् भव २, १६; पित्र ३, ८१; गोपु: ११; गौ १५, १९१;
 -नात् शां १, ७, ४५; ने गर्भे १.
 रसना-नया भा ६; यो २, ४८;
 -ना प्रवि ७३; नाम् त्रिमा २, ९३.
 रसना-मूल-लम् यो २, ३१.
 रसना-हो(न)>ना-ना अक्ष ४, ५२.
 रसयत्-यत् वृ ४, ३, २५.
 रसयति-ते: वृ ४, ३, २५.
 रसया-रसयां/कृ, रसयांचक्रु: सार २४८: १७.
 रसयित्थय-थ्यम् प्र ४, ८; मुवा ५; ६; ९; थ्ये मुवा ५

रसयित्-ता प्र ४, ९; मै ५, ७; मैति ६, ७; ११; १आ १; २आ २; मु: वृ ४, ३, २५.
 रास-सा: सार २३८: २३; २३९: १७; २४०: १७; २८३: १८; सयो: सार २३९: २३; से सार २३९: २३.
 रास-त्रेलि-कला(ला-आ)-मिका-काम् सार २३२: १२.
 रास-त्रेलि-कौतुक-केन सार २३४: ७.
 रास-क्रीडा-डा सार २८३: १८; डाम् सार २३४: ११.
 रासक्रीडा-कृतहल-लेन सार २४८: २.
 रासक्रीडा(डा-अ)तुर(क)>-का-क्ता: राधा २, १.
 रास-मण्डल-लम् सार २२३: १७; २७०: २; लस्य सार २२४: २०.
 रासमण्डलो(ल-उ)पासक-का: सार २७९: २३.
 रास-मान-जल-क्रीडा-(डा-आ)मन्-रमने सार २५१: १६.
 रास-माया-या सार २८०: ११.
 रास-लीला-ला सार २६३: ११९७; लाम् सार २३८: ६; ७; २४१: २०; २४२: १०; २७९: २३; २८६: ७; लाया: सार २२७: ३; २४२: ३; लायाम् सार २३८: २३; २४१: २०; २४२: १२; २७४: १.
 रासलीला-कृत-ते सार २४०: १३.
 रासलीला-योग्य-न्या: सार २४९: २१.
 रासलीला-मुख-लम् सा २८३: १९.

a) =आस्वाद-, आस्वादानेन्द्रिय-, जपन- । b) =आस्वाद-, आस्वादानेन्द्रिय- । c) =गोपीविशेष- ।

रास-सखी- -खीनाम् सार
२५३: १८.

रास-स्थान- -नम् सार २३९:
११; २८०: ११.

रासा(स-आ)गम-सोसा(ह>)-
हा^१- -हा सार २६३: ११.

रासा(स-आ)दि-लीला-ध्याना-
(न-अ)धस्या- -स्थायाम् सार
२७९: ९.

रस- √रस् द्र.

रिसकारकारमये^२ अद्वै २०.

रसन- , रसना- , रसयत्- , रसयति- ,
*रसया- , रसयितव्य- , रस-

यित्- √रस् द्र.

रसातल^३- -लम् राधा १, ३; शि ७,
२९; गु १९.

रसातल-लोक^४- -का; -केषु सुबा १०.

रसातललोक-ज्ञान- -नम् सां
१, ५, ५२.

रसातल-पाताल-गङ्गा-रोहिणी-

कुण्ड- -नम् राधा ४, ६.

रसायन- , √रसि, रसिक- , रस्य-

√रस् द्र.

√रह् (>वधा.)

रहस्^५- -ह: ते ४, १५^६; ६६^७;

-हसि १योत ६३; जाद ५, १०^८;

सार २२०: ११; २४७: १६;

२५८: ७; २६८: २१; २८९:

९; २९२: १९; गी ६, १०.

रहस्य- -स्पन् मैत्रि ६, २०;

वृत् ८, २-५; छु १, १२; अवि १;

नाप २^९; राष्ट्र ४, ६७; योशि ६,

२; म ७; सु १, १, ३३^{१०};

३५^{११}; १म ३०: ४; गोच ६७;

१८; सं २२^१; सार २३०: २३;

२३८: २२; २४३: १८; १९;

२४४: ५; ७; २४८: २१; २४९:
२; २८९: १४; २९२: १६; ७४

६, ३३; ४९; गी ४, ३; -स्थानि
शु १, ११; -स्थे सार २५४: २२.

रहस्य-कृत-

रहस्यकृत-प्रकाशकृत-

धिरकालाख्यन्तकृत- -तेभ्यः
त्रिवि ८, १९.

रहस्य-कीडा- -डायाम् सार

२४६: २१.

रहस्य-नामन्- -मभि: रा

४२५: ४.

रहस्य-लीला- -लाम् सार

२२०: २०; -लायाम् सार २८८:
२०.

रहस्यलीला-योग्य-

-यम् सार २४१: ८.

रहस्य-स्थान- -नम् सार

२३९: १; -ने सार २५६: ९.

रहस्यो(स्य-उ)पनिषद्^{१२}-

-पव् शु १, १५; ३, १६; -पदम्

शु १, १^{१३}; ३, २३.

रहस्योपनिषद्-ग्रहन्-

-ञ्ज शु १, १६.

रहस्योपनिषद्-विभाग-

रहस्योपनिषदि-

भाग-वास(>) शु ३, १.

रहस्योपनिषद्-नामन्-

-न्ना शु १, १३.

रहित- -त्त: यो २, २६; पा १, ५;

-तम् योशि १, ५१.

√रा, राति राष्ट्र १, १; ५^{१४}.

राति- -ति: वृ ३, ९, २८, ७; -ते:

महा २, ९.

रा^१ सार ५, १२.

१रा^१ त्रिवि ७, ३०; सार २, ६१; ८२;

३, १; रा^१-रा^१ सार २६०: २३.

२रा^१ पा १, ५^{१५}.

१राक-

राकि(र>)नी^{१६}- -नी पी ४२२:

११.

२रा(क>)का^{१७}- -काम् पा ७, ४^{१६}.

राका-सिनीवाली^{१८}- -लीभ्याम् सी

३७.

३रा(क>)का^{१९}- -काया: जाद ४;
१८.

राका(का-आ)ह्(य>)षा- -या घोशि

५, ३४.

राज्ञस्- , राक्षसी- रक्षस्- द्र.

१-२राग- , रागिन्- √रञ्ज् द्र.

राघव- १रञ्- द्र.

√राज्> , राज्ञ्, राजते ष्या १०४;

राप् १, १; महा ४, ३४; ५, १८;

योशि १, १३८; सार २४४:

१६; २४५: ४; ७; राजन्ते सार

२२१: १६; १७; १९; २२२: २०;

२२३: २२; २२८: ४; २४४: १९;

२४६: १; २५८: १५; २०;

२६३: १८; २६७: २; २७४:

१७, २८४: ४.

राजन्^{२०}- -ञ्ज् छां ५, ३, ६;

१२-१७, १; वृ २, १, १५; मै

२, ३; मैत्रि २, ३; ६, २९; ७,

८; कौ ४, १८; महा २, २१; भव

१, ६; १९; २, १८; ३, १; ३, ६; ४,

१८; ५, १८; २२; गी ११, ९;

१८, ७६; ७७; -जभि: गोच ६७:

२३; -जा छां १, १०, ६; ५, २,

६; ४, ३; १०, ४; वृ १, ३, २४;

४, ११; २, १, ३^२; ३, ५, १५; ४,

३, २०; ३३; ६, २, ९; ३, ५^१; मै

१, १^१; मैत्रि १, २^३; मैत्रे १, १^३;

अ) पा. १। ब) व्यु. १। c) धा. अर्थ: १। d) 'रवि:' इति अख्या. संदि.। e) पा. १ 'हर->-र:' इति बोध: द्र. (तु. निता. संदि.)। f) °स्ये इति अख्या. संदि.। g) =तवास्थोपनिषद्विशेष-। h) 'रामस्य' इति धान. संदि.। इ) 'राम-' इत्यस्य एवांशः। j) =धीजन्त्रविशेष-। k) तु. गप. वृ २, ३, ८। l) अर्थ: १ (भूयसोऽर्थविकल्पस्य कृते तु. पाटी.)। m) वैप १ यद्र.। n) अ २, ३२, ४। o) व्यु. १ =नाटीविशेष-। p) वप. वैप १ यद्र.।

मना १, १३५^०; १५५^०; क्री २, ९; ४, ३; १५; नाद १२१^०; ते २, १९; महा २, २४; ए ११;
 रुजा १, १०; इ १०:२; १८:११;
 २शिसं ३३५^०; शि ६, १५७;
 अक्ला १^०; रा ४२५: १७:२०;
 गी १, २; १६; -जान: मै १, ५;
 मैत्रि १, ४; अन्य ७; कालि ४०२:
 ५; रा ४२४: १७; -जानम् छां
 ५, ५, २; वृ १, ३, २४; ४, ३,
 ३७; ३८; ६, २, १०; १६; मै १,
 १; २, १; मैत्रि १, ३; २, १; मैत्रे
 १, १; छाग २५: ४; -ज्ञ: छां
 ५, ३, ६; कौ २, ९^०; महा ४,
 १०५; सार २३०: ८; अह
 १६५^०; सांस् ३, १६; -शा वृ १,
 ४, १४; पाशु १, ३१^०; -ज्ञाम्
 छां ८, १४, १; ह ९; नापू २, ७; जै
 सिशि ३८०: ७; रा ४२५: १७.
 राज्ञी- -ज्ञी छां ३, १५, २;
 -ज्ञीम् पो १३^०.
 राज्ञी-पुटित- -तम् पो
 १२^०.
 राज-कर्मन्- -मैत्रि मैत्रि ७, ८.
 राज-गृह्य- -ह्यम् मुह ४; गी ९, २.
 राज-चोर-सर्प-सिंह-अ्याप्रा-
 (प्र-अ)ग्या(मि-आ)सु(दि-उ)-
 पद्व- -वम् व ४३८: १४;
 ४३९: २; ११; २१; ४४०:
 १; १९; ४४१: ६; १७; ४४२:
 ५; १५; ४४३: २; १३; ४४४:
 ६; १६; ४४५: ३; १४; ४४६: २;
 १३; २३; ४४७: ११; २३;
 ४४८: १०; २१.
 राज-दन्त^०- -न्तम् योरा १४.
 राजदन्ता(न्त-अ)वल्मि-

नी-वियर- -रम् सी ३, १.
 राजदन्तो(न्त-ऊ)ध्वं-
 कुण्डल-
 राजदन्तोर्ध्वकुण्डलिन्-
 -ली यी २, ४९.
 राज-धा(न<)>नी- -नीम्
 नाप ७; १संन्या २, ७९.
 राजन्य- -न्य: सुवा १५^०; -न्यस्य
 वृजा ४, ४.
 राजन्य-यन्थु- -न्थु: छां^०,
 ३, ५; वृ ६, २, ३.
 राज-यष्ट- -ष्टम् शि ६, ६५.
 राज-पुत्र- -त्र: प्र ६, १.
 राजपुत्र-वत् सांस् ४, १.
 राज-पुत्री- -प्रीणाम् सार २४२:
 ८; -भ्य: सार २४१: १४; १५;
 २४२: १; १८.
 राज-पुरुष- -पम् छाग २५: ४.
 राजपुरुष-स्त्री-पुरुष-यशं-
 क(र<)>री- -रि व ४४९: ६.
 राज-प्रजा-वशं-क(र<)>री-
 -रि व ४५७: २२.
 राज-मन्त्र-यन्त्र-तन्त्र- -ध्रम-
 (र<)>री- -रि व ४३२: १२.
 राज-मात(ङ्)>क्षी^०- -ज्ञी व २१
 राज-मार्ग- -गण शि ६, १४३;
 १५४; १७४.
 राज-योग^०- -ग: १योत १२९;
 योशि १, १२९^०; १३७; योरा १;
 -जेन १योत १२९.
 राजयोग-क- -क: १योत
 १९^०.
 राजयोग-तस(र<)> योशि
 १, १३८.
 राज-रम्भो(म्भा-ऊ)ह- -रम्
 रा ४२४: २२.

राज-राजे(ज-ई)अ(र<)>री-
 -रि हपो १५.
 राज(ज-ऊ)दि- -यंप: गी ४, २;
 ९, ३३.
 राज-लक्ष्मी- -क्ष्मी: व ४२७: ५.
 राज-यशं-क(र<)>री- -री रा
 ४२४: १५; ४२५: ४.
 राज-वार्ता(तां-आ)दि- -दि
 नाप ३, ५८.
 राज-विद्या- -द्या गी ९, २.
 राज-वृक्ष^०- -क्षेपु शि ६, १२.
 राज-इयाम(ल<)>ला^०- -ला रा
 ४२५: ४.
 राजदयामला(ला-अ)म्बा^०-
 -म्बाम् रा ४२५: १४; १९.
 राजइयामला-रहस्यो-
 (स्य-उ)पनिपद्^०- -पदम् रा
 ४२३: ५; ६.
 राज-सूर्य^०- -ये वृ १, ४, ११.
 राज-स्तम्भ^०-
 राजस्तम्भ^०-
 राजस्तम्बायन^०- -न:
 -नात् वृ ६, ५, ४.
 राज-स्त्री-संभोग- -नाम् रा
 ४२४: ११.
 राजा(ज-अ)भिक्रयण^०- -णानि
 छाग २३: ११; २४: १४.
 राजे(ज-इ)न्द्र- -न्द्र भव १, २९
 राजो(ज-उ)पचार- -रै: सार
 २३६: १२.
 राज्य- -ज्यम् छां ५, २, ६; ते
 २, २०; महा २, ५५; सु १, १,
 ४६; वि १८; शि ६; १४; १५;
 २१८; गी १, ३२; ३३; २, ८;
 ११, ३३; -ज्याय छां २, २४,
 ४; -ज्ये मै १, १^०; मैत्रे १, १;

a) तैआ १०, १, १३ । b) श्र ९, १७, ४० । c) वर्षरा इति पा.इ 'वर्षे, राजन्-> -जा' इत्येवं श्लोचः
 द. । d) श्र १०, १२, १३ । e) ज्ञा इति अख्या. । f) तैआ १, २७, २ । g) तु. गप. वृ३४२. c । h) =ऐ-बीजाक्षर- ।
 i) पूष. =बीजाक्षर- । j) श्र १०, १०, १२ । k) गंगा इति अख्या., अख्या. संति. । l) योगतः इति निसा. ।
 m) =गोत्रप्रवर्तक-श्रपिपिशेष- । n) विरा इति मैत्रि १, २ ।

राज् ४,२४; -ज्येन गी १,३२.
 राज्य-योग्य- -ज्यम् शि ६,
 २२२.
 राज्य-लक्ष्मी- -क्ष्मीः नापू
 २,५.
 राज्य-सुख-लोभ- -भेन
 गी १,४५.
 राज्यवा(ज्य-ञ)भिविक्-
 -क्तस्य राष्ट्र ५,६४.
 राज्यवा(ज्य-ञ)हं- -ह्रांगाम्
 राष्ट्र १,४.
 राजत¹¹- -नम् छां २,२०,१;२.
 राजमान,ना- -नः सार २२१:
 २०; २४५:९; १२; २५७:७;
 २५८:८; -ना सार २४५:८;
 २६५:६; २६७:२१; -नाः सार
 २२२:६; ११; १४; २२५:११;
 २३३:९; २६६:१; ५; २६७:८;
 २७०:७; २७१:२; ४; २७४:
 ११; १७; २७५:६; २८१:
 २१; २८३:२१; २८४:७;
 २८५:२०; -नानि सार २४६:
 १; २६५:११; २६६:१६;
 २७१:१; २७६:४; २८१:२०;
 २८२:४; २८४:५; -नाम् सार
 २३९:३; -नी सार २४४:२१.
 राजमान-व- -वम् सार
 २४५:२३.
 राजि-
 राजि-मन्त^b- -न्तम् पा ८, ३.
 राजिमन्ता- -न्ताम् वा ९,
 ६; ८.
 राजित- -तम् रार २,३७.
 राराजि-
 राराजि-मन्- -मन्तम् पा७,१०.
 राजत- राजत- द.
 राजज्य- √राज् द.

राजिस्- रजम्- द.
 रैराजि- √राज् द.
 रराजि^c- -जयः वृ २,२,२.
 राज्य- √राज् द.
 राजि,त्री^d- -त्रयः वृ १,५,१४; सार
 २४२:३; -त्रिः प्र १,१३; छां५,
 ६,१; वृ १,१,२; ६,२,११; श्रेष्ठ,
 १८; मना १,१३५; २,३२५; ते
 ६,१७; सी १४; त्रिविदे,४; १संन्या
 २,८३; २०; सुदे १; सुपोष्ठ०:२;
 गी ८, २५; -त्रिभिः वृ १, ५,
 १४; -त्रिम् छां ५, १०, ३; वृ
 १, ५, १४; ६, २, १६; त्रिभा
 २,१२०; सार २४१:१७; गी
 ८, १७; -त्रीः क १,१,९; ११;
 छां ७,९,१; -त्रेः छां ५,१०,३;
 वृ ६, २, १६; -त्री प्र १, १३;
 छां ५, ३,४; नाप ४, १९; शां
 १, ७, ३८; १संन्या १, १; सार
 २३६:७; २४१:२३; २४६:
 १२; २५४:८; २६२; २१;
 २७३:२०; २७४:१; २७९:
 ११; २८३:८; २८७:८; शि २,
 २९; ७,३३; ६०; वालि ४०२:
 ११; रा ४२४:१८; ४२५:५;
 १४; १६; १८; भव १,२२; कश्चु १,
 १; -ष्या मना २,३२५; ३४१५.
 राजि-कृत- -तम् ना ५; अक्ष १६;
 दे २२; श १६; मवा १२; इ
 १०:१७; सं २१; सिधि ३८३:
 १३; -ताव म १,११.
 राजि-पर-भाग- -गे सार २८६:
 १८.
 राजि-प्रव(तंके)>र्तिका- --के अक्ष
 १५.
 राज्यवा(त्रि-ञ)गम- -ये गी ८,१८;
 १९.

राधीतर- रथ- द.
 √राधु(°वधा.),राध्वते तै ३,१०,१.
 . भराधि तै ३,१०,१.
 राध- -इः वृ ४, ३,२३; -इम् तै
 ३,१०,१.
 राधन- -नम् गी ७, २२.
 राधस्- -यः व ४४९: १२५.
 रा(ध>)धा¹¹- -धा सार २५१:७;
 -धाम् सार २२१:९; -धामा:
 सार २८७:९; -०धे सार २४४:
 ६; २९२:२१.
 राधा-कुण्ड- -ण्डम् राधा २,६.
 राधा-कृष्ण- -कृष्णोः राधा २,७.
 राधा(धा-ञ)ह- -हम् राधा २,६.
 राधा-मनो-हारिन्- -रिणे सार
 २६१:१.
 राधा-रमिक-लीला- -लयो:
 सार २३२:२०.
 राधा-रमिकानन्द- -न्दाम्याम्
 सार २५४:५.
 राधा(धा-ञ)स्वादित-मिष्ट-
 रस- -साः सार २६७:७.
 श(धक>)शिका¹¹- -का राधा
 १,१८; ३,१५; ४,२; -काम् सार
 २२६:७.
 राधिका(धा-ञ)र्थ- -र्थे सार
 २३८:५.
 १-२राम- √रम् द.
 रामठ¹²-
 रामठा(ठ-ञ)दि- -दि १योत ४७.
 रायि-
 रायि-रूप- -रूपम् पा ७,१.
 √रारज्, राराग- √रज् द.
 √राराज्, राराजि- √राज् द.
 राध- ,रावण- √राधि √द द.
 √°राधु(<राज्)
 १राधु^m- -धुम् मदा ५,७४.

अ) =सावविशेष- । b) °उप. =मनुष्य प. । c) गपू. (इ ५९) 'अन्त,न्ता->न्ताम्' इत्येव सस्य. यनि.
 शोधः कर्तव्यः । d) =पङ्क्ति- । वैपरी यद. । e) वैपरी यद. । f) 'रात्री' इति श्रु १०,१९०,१ । g) तैआ १०,
 २५, १ । h) °ष्याव इति पा. [(तु. °त्रियाव तैआया १०,३४)] यनि. शोधः द. । i) श्रु ८,६४,१ । j) =नोपी-
 विशेष- । k) व्यु. 1 =दिहु- । l) व्यु. 2 =रयि- । m) अधिकरणे जाप. वैपरी यद. ।

राशु-रक्षा- -क्षा भव ५, १३.
राशु-वर्धन- -नः राशु ४,
३०.

२रा(शु>)ष्टी- -ष्टी दे ३५^०; द्व
१५५^०; सर २, ५५^०.

१राशि^{१६}- -शिः छां ७, १, ४; -शिम
छां ७, १, २; २, १; ७, १.

२राशि^{१०}-

राशुया(शि-आ)दि-भूपित- -न्तम्
रार ३, १; राशु ४, ५३.

रास- √रस द.

रासताम्^१ र् २४५^०.

राहु^{१०}- -हवे व ४३७ : १९; -हुः ते
६, ९४; राशु १, ३; -होः छां ८,
१३, १.

√रि> रेति

रेरिवन्- -वा ते १, १०, १;
नाप ४, ३८५^०।

√रिख्

रे(ख>)खा- -खा काला ४; १२;
१४; २५; त्रि १०; रुजा १, १४;
जावा २०; २१; ऊ ६३ : २; का
१४; -खाः काला ९; त्रि ५;
जावा १८; ऊ ६४; ३; ६; -खाम्
त्रिता २, ४१; -खे नार ८.

रेखा-चतुष्टया(य-अ)म-कोण-
-णेषु त्रिता २, ४४१^०.

रेखा-त्रय-युक्त- -कम् रार
३, १.

रेखा-त्रय-समन्वित- -न्तम्
राशु ४, ५२.

रेखा-बलय- -यम् ध्या ९३, १.
रेखो(खा-उ)परेखा-बलि(त>)-

ता- -ता महा ५, ५७.

√रिचु> रेचि, रेचयेत् अना २१;
ध्या ९३; १योत ३९; ४२;
११३; त्रिमा २, ९७; योचु ६६;
९५; ९८; शां १, ५^०; ७, १; १४^०;

योशि १, ९१; ९३; ९५; ९७; ९८;
यो १, १६; २४; २५; २७; ३०;
३२; ३७; जाद ६, ५; ९.

रिक्त- -कम् शि ७, ८३; वड ६,
११; -क्त वड ६, २१.

रेच^{११}- -चः ध्या २१.

रेच-पूरक-कुम्भक- -काः अना
१०; जाद ६, २; कात् प्रवि ५५^०;

-कैः योशि ५, ३७; जाद ६, १.
रेच-पूर-विवर्जित- -ते १योत
५०.

रेचक^{१०}- -कः योचु १०१; जाद ६,
१३; वरा ५, १८; ५८; -कम्
अना १०; त्रि २१; त्रिमा २,
१०८; योचु १०३; योशि १,
१२७; वरा ५, ५७; -कस्य अना
१२; -केन ध्या ३२.

रेचक-पूरक-कुम्भक-मेद-
-देन शां १, ६.

रेचक-पूरक-युक्त- -क्तः शां १,
७, १४.

रेचक-पूरक-दोषक-दाहक-
-झावक- -काः भा १७^०.

रेचका(क-आख्या)> -क्य-
-क्यः ते १, ३२.

रेचका(क-आ)दि- -दौ शां १,
७, ११; योशि १, १०६; यो १, ४७.

रेचकादि-त्रय- -यम् ध्या

९९.

रेचन- -नम् त्रिमा २, ९७^०.

रेचयिस्वा शां १, ७, १.

रेचित- -तः योशि १, १२२; -नम्
१योत १३८.

रिपु^१- -रिपः कृप १५.

रिपु^१- -पुः महा ३, १६; ५, १११;
१संन्या २, ३७; गी ६, ५; -पुणा
महा ५, १११; -पुम् शि ७, १०;
-वौ जाद १, १६; वा २, १९.

√रिपु> रेपि, रिपयति छां ४, १६;
३^०; पु १, ५, २०; २१; ३, ९,
२६; ४, २, ४; ४, २२; ५, १५;

रिप्येव छां ४, १७, ४-६.
रीरिपः श्रे ४, २२५^०; मना २,
४६५^०; ५१५^०; ५२५^०; ५३५^०;

२शिशं २८५^०; २९५^०.

रिपु- रिपा वा ३.

रिप्यत्- -यन्तम् छां ४, १६, ३.

√री

रय^१- -यः योशि ६, ३७.
रौ^१ त्रिवि ७, ३८; रार ३, १.

√*रीजू> रेरीजू> जि
रेरीजयत्- -यन्तः पा १०, १.

√र(बधा.)> रावि, रोह, रु(रो)-
रुवीत ह्याग २५ : १३.

राव- -वात् राशु ४, १८.

रावण^१- -णः राशु ४, १७; १८^०;
-णम् रार २, ८५.

रावणो(ण-उ)म्मुख- -सम् रार
२, ७२.

रु^१-

रु-शब्द- -ब्दः अता १६; द्व १०.

a) कर्तरि नाप. वैप१ यद. । b) ऋ १०, १२५, ३ । c) ऋ ८, १००, १० । d) व्यु. ? = गणितशास्त्र- ।
e) व्यु. ? = मेपादि- । f) वैप१ यद. । g) ऋ १०, ३६, १४ । h) व्यु. ? = महविशेष- । i) यद्गुणन्तात् कनिर्प द. ।
j) *व इति निमा. यनि. शोधः द. (तु. तैआ ७, १०, १; आन., अज्या.) । k) *चराम^० इति निमा. यनि. शोधः द. (तु.
अज्या.) । l) = प्राणायामविशेष- । m) *वकप^० इति अज्या. । n) = प्राणायामविशेष-, वायुविशेष- । o) *दृक्ष^०
इति निमा. यनि. शोधः द. (तु. अज्या.; वैतु. तान्त्रि. असमस्तः पा.) । p) = पृथिवी- । वैप१ यद. । q) ऋ १,
११४, ८ । r) ऋ १०, १८, १ । s) तैआ ३, १५, १ । t) ऋ १, ११४, ७ । u) = वेग- (वैतु. पाधामा. √रयन्-अच्
इति) । v) = बीजमन्त्रविशेष- । w) धा. अर्थः ? = दशानन- । x) 'गुरु' इत्यस्य चरमावयवः (तु. गप्. पृ२७२p) ।

रुं व ४३५ : २३.

✓रुच्^० (बधा.) रोचते मगा २, ७१५^०.
 योशि १, ७०; अक्ष ५, १०५^१;
 पाशु १, २८; शि ६, ४२;
 रोचन्ते महा २, ४२; सार २४४:
 २३; विथ ५, १; रोचताम् अक्ष
 ५, १०६; ५^० अरोचथाः जा ४;
 नाप ३, ७७; ११४१८ : १११^०;
 या १, १.

रुचन-

रौचम- रुमे अव्य ६.
 रुचम-वर्ण- र्णम् मुं ३, १, ३;
 मैत्रि ६, १८.
 रुचमा(कम-आ)भ- भम् गव
 २, ४३.
 रुचमा(कम-अ)भ्यर-निमा-
 (भ-आ)काश-शम् वपु २, २.
 रुचिम(रु>र्ण)- नी गोज ४४;
 -ग्मा गोज २८; ३४.
 रुचिमणी-कान्त- -०न्त
 गोपु ४४.
 रुचिमणी-वहभ- -भाव
 त्रिवि ७, ३६.
 रुचिमण्या(णी-आद्य>)-
 धा- धाः सार २४१ : १०;
 २४२ : १८.
 रुच्- रुचे मना २, ४०५^०.
 रुचि- चिः सार २१० : ३; २२७:
 ७; २५० : १२^१; २०१ : १७^१.
 रुचिर, रा^१- रुम् अना ९; १०^१;
 -राः सार २५३ : १६; -राम् सार
 २४६ : १२.

रुचिर-रति- -तिम् सार २७४ : ६.
 ररोचन- -नः ५^१ वृत् २, ११; १५.
 ररोच(न>)ना^१- :
 रोचना(ना-आ)लभन- -नम् शि
 ७, ४४.
 रोचमान- -नः ५^१ वृत् २, ११; १५;
 सार २४५ : १२.
 रोचिण्यु- -ण्युः वृ २, १, ९^१.

✓रुज्

रुज्- रुजम् योच् १०२; भ २, ८.
 रुज्-भादि- -द्वयः योशि १, ३६.
 रुजत्- -जत् व ४६० : १७५^१.
 रोग- नाः श्वे २, १२; ध्या ८०;
 योच् ५३; यो १, ५७; ५८; -गम्
 छां ७, २६, २; मैत्रि ७, ११^१; व
 ४३२ : १८; -गाः योच् ६९;
 ११७; सां १, ३, १२; योशि १,
 १४६; अव्य ७; यो १, १८; -गात्
 सूता १, ४१; -गान् व ५, १०;
 -गेण ध्या ८१; योच् ५४; -नैः
 यो १, १७.
 रोग-प्र- -प्रः सूता २, १२; १४.
 रोग-नाशि(रु>)नी- नीम्
 तुल ७० : ६.
 रोग-प्रद- -दे शि ७, ८६.
 रोग-धामन- -नम् शि ५, १६.
 रोग-नाला- -लापाः महा ५,
 ११६.
 रोगा(ग-आ)दि-द्वयित- -ते
 त्रिआ २, ११३.
 रोगा(ग-आ)वतन- -नम् नाप
 ३, ४७.

रोगा(ग-आति>)र्ता- -र्ताम्
 वृजा ३, १.
 रोगिन्- -गी इ १७ : ६; सूता
 १, ४१.

✓रुद् > रोदि, रोदिति छां ३, १५, २;
 ८, १०, २, ४; रुदन्ति स्व ६१ :
 १९; रोदिति महा ४, १२०.
 रुदति व ३, ५८.
 रुदम् छां ३, १५, २; ५^१ की २, ८;
 १०.
 रोदयन्ति छां ३, १६, ३; वृ ३,
 १, ४^१; रोदयस्व मना १, १५५^०.
 रुद(त>)न्ती- -न्त्यः सार २३२:
 १८.
 रोदन- -नात् व ३, ५८.

१रुद्र- -०द् श्वे ३, ५५^०; ४, २१;
 २२५^०; मना २, १९५^०; ५२५^०;
 ५३५^०; नी १, ८५^०; लि ३०९ : ६५^०;
 २शितं २८५^०; २९५^०; व ४३८:
 १२; ४६२ : २३५^०; -०द्-०द्
 रुद्र १६; -द्गः प्र २, ९; वृ १, ४, ११;
 २, २, २; श्वे ३, २; ४५^०; ४, १२५^०;
 मै ४, ४, १२; ४, ५^१; ५, ५, ७;
 ८; मैत्रि ४, ५, ५, १; २^१; ६, ५, ७;
 ८; ७, ७; जा १; ६१४; ना १; मना
 १, ५१५^०; २, ११५^०; १२, ३५^०; २,
 २०५^०; २४५^०; २५५^०; ३५५^०;
 ६८५^०; ७४५^०; ऋ २; पथ २;
 अशि २, १^१; २, ३; ४^१; ५-८; ९^१;
 १०-१२; १३^१; १४-१७; १८^१;
 १९-२४; २५^१; २६; ३, १३^१; ४;
 १८; १९५^०; ५, ३५^०; १९^०;

a) तु. गप्. वृ २३३b । b) तैआ १०, ६३, १ । c) श्र ३, २९, १० । d) आरो^० इति निता. यनि. सोधः
 द. (तु. अश्या.) । e) मा १३, ३९ । f) विप. = रुचिम्- । g) वा. क्वि. द. [वैतु. नादी. (आन.) विरो. एवेति] ।
 h) 'कुर्वीत' इति शेषः । ० रे इति आन. ? यनि. सोधः द. (वैतु. गप्. नादी.) । i) तैआ ३, १०, १, २ । j) श्र १०,
 ८४, ३ । k) ० गः इति सात. । l) मंवा १, ५, १० । m) तैआ १०, १, १५ । n) वैप १ यद. । इह = देवताविशेष-
 वीजाचरविशेष- , विप. अवि । o) मा १६, २ । p) श्र १, ११४, ८ । q) मैतं २, ९, १० । r) श्र १, ११४, ७ ।
 s) तैआ १०, १०, ३ । t) 'प्रह्ला' इति सात. । u) तैआ १०, १, ५^१ । v) तैआ १०, १, १६^१ । w) तैआ १०, ४०, १ ।
 x) तैआ १०, १६, १^१ । y) तैआ १०, १६, १ । z) तैआया १०, ३५ । a^१) तैआ १०, ३१, १ । b^१) तैआ १०, ३७, १ ।
 c^१) तैसं १, ८, १ । d^१) ०द्म् इति अश्या. ।

६, १९; २; ३; ४; १२; १३; अ
 ३; वृ३, ४^७; मुवा २; ५; मप्रि
 १२; नि ५; ते २, ५; ४, १५; ५,
 ५२; ष्या २१; म्रि ४१; ६१;
 ७२; योचू ७२; ७६-७८; वा
 ७; प्रि ७, ४३; राठ १, १;
 सां ३, १; महा ३, ५२; योशि
 १, १७७; ५, १४; ए ५; १२; स
 १०; पाशु १, १०; ११; प्रिता
 ४, १३; रू४; ८; ९; १६; १७;
 १८-२३; म २, ६; ७; ९; ८;
 रुजा २, १९; ग ६; सा १, १; ३;
 प्रा १, १९; गोठ ३८; कृ८; ११;
 व ३; वरा १, १४; भाच ९;
 ३म३५: ४; वा२४; सूता १, १७;
 स्व६०: ५; सार २५२: ९; २५५:
 १९; २५७: १६; २२; २३;
 २६०: १४; २६१: १६; २८०:
 १५; नी १, ३; पारा ४; ९; व
 १८; लि ३१०: १६; वटू ३१३:
 ६; ३१५: १३; ३१६: ११;
 १२९; ३१७: १९; २शिं
 ३१९; ३५; ९; शि २, ५; ५,
 २७; गार ४०५: १९; ४०८:
 ६; व ४३८: ११; १७-१८९;
 ४५९: १६; चू १२; वउ ३,
 ६३; १, २; ६, २; -द्रम्य अशि १,
 १; १२; १३; ५, ७; १९; वृउ
 ३, ९; १०; सुवा ९; नाद १५;
 १योत ९३; रू४ ७; २४; च
 २१: १५; १६; नी १, १; वटू
 ३१७: ८; स ३७८: १; य ७२:
 व ४५९: २०; वउ ५-६, १;
 -द्रम्य मैत्रि ६, २६; वृजा ७, ८;
 रू४ ४; रुजा ३, १; सार २६१:
 २३; -द्रा: छां २, २४, १०; ३,

७, १; १९, ३; ४; वृ १, ४, १२;
 ३, ९, २; ४; ९; मैत्रि ७, २;
 ना१; अ १; वृजा ६, १२; वृ
 २, १; ४, १५; १८; ५, ८; वृउ
 ३, १; सुवा ६; ते ५, १०-४; ना
 ५, २५; प्रि २, १६; राठ ४,
 ३३; ए७; दे१०; गोठ २३; २६;
 ६२; नापू ५, २५; कृपु ८; नी
 १, ९९; शि ७, १३८; १३९; यु
 ५३९; वपू १, ६; -द्राणाम् छां
 २, २४, १; ३, ७, ३; ४; १६, ४; गी
 १०, २३; -द्राय रू४ ८; -द्राय
 रापू ४, ५१; अश्व ५; सौ ५२:
 १५; २२; शि ४, २९; गी ११,
 ६; -द्राय मना२, १८९; २४९;
 २५९; ६७९; ७५९; अशि ६,
 २९; ४; ६; वृजा ३, १५९; वा
 ७-१३; २३; म १, ६; गोठ ६६;
 नापू ३, १५; २शिं ३१९; ७;
 ३५९; शि ६, २३०; व ४३८: ९;
 ११; १८९; २०; २१; ४३९: ७;
 ८; १७; १८; ४४०: ५; ५; १४;
 १५; ४४१: २; ३; ११; १३; २३;
 ४४२: १; ११; १२; २१; २२;
 ४४३: ८; ९; १८, १९; ४४४: १;
 ४४८: ५; ६; १६; १७; ४४९:
 ४; ५; १४; १५; २१; २२; ४५०:
 ५; ६; १२; १३; १९; २०; ४५१:
 ५; ६; १२; १३; १९; २०; ४५२:
 ४; ५; १२; १३; १९; २०; ४५३:
 ३; ४; १०; १५, १६; २१; २२;
 ४५४: ४; ५; ११; १३; १८; १९;
 ४५५: २; ३; ९; १०; ४५८: ३;

४; ४५९: ८; -द्रै अशि ५, ७;
 १९; सुवा ५; कृ४; वटू ३१७: ७;
 -द्रैण अशि ६, ५; रापू ४, ५८;
 रू४ १५; सार २५६: ९; २५७:
 ७; ९; ११; १५; शि १, ५; ५, २;
 -द्रैमि: दे १९; -द्रैयु गोठ ६३;
 -द्रै: प्रा १, ५; सिशि ३८३: १.
 वृजाणी- नी हं १४; ना
 २, ८; ष्या सार २५५: १९;
 २५७: ८; २६०: १४; ष्या:
 शि ६, २३०; ष्यै व ४३१: ५
 रीद्र, द्रा- -०द्र अश ५; -द्रम्
 छां २, २४, ७; गोठ ३; गार
 ४०७: ९; व ४५९: ६; -०द्रै
 व ४३१: १७; -द्रैण व ४६४:
 १४९; -द्रै: म २, २१.
 रीद्री- द्री वृजा २, १;
 योचू ८६; गोठ ६३; वसु १५.
 रीद्रा(द्र-व्या)नन- ना: म
 २, २७.
 रूद्र- -द्राणाम् अशि ७, ६; राठ
 ५, ४; पै ४, २३; ता ३, ९.
 रूद्र-जापक- -केन वृजा ८, ६;
 वृपू ५, १९.
 रूद्रजापक-शत- -तम् वृजा
 ८, ६; वृपू ५, १९.
 रूद्रजापक-सम- -मम् वउ
 ५, २३.
 रूद्रजापकै(क-ए)का(क-अ)-
 थिक-शत- -तम् वउ ५, २५.
 रूद्रा(द्र-अ)ष्यायिन्- -यी वृजा
 ७, ७.
 रूद्रा(द्र-अ)लुवाक- -कम् अ २,
 २१.
 रूद्र-मन्थि- -न्थि: म्रि ७१; -न्थिम्
 योशि १, ११५; यो १, ६८; ८६;

a) शौ ७, १२, १। b) द्रा इति निता। c) तैव्या १०, ३१, १। d) तैव्या १०, १६, १। e) सकृत् ०द्रः इत्येवं शोधः द। f) मा १६, ६। g) 'विश्वे' इति श्रु १, १६४, ३९। h) श्रु १०, ४४, १। i) तैव्या १०, १६, १। j) श्रु १, ४३, १। k) तैव्याव्या १०, ६७। l) तैव्याव्या १०, ७५। m) श्रु १, ४३, १; तैव्या १०, १६, १। n) =एकार-बीजाक्षर-। o) श्रु १०, १२५, १। p) तैव्या ४, ३८, १। q) =द्वमन्त्र-।

वरा ५, ६५; ६६; -यो योशि १,
८७.
रुद्र-चरित- -वम् अशि ४, २४; वडु
३१६: १९.
रुद्र-ज(उ)> शि^१ - -०टि व ४३५:
२३; शीम् व ४३४: २३;
४५६: २.
रुद्र-व- -वम् मैशि ६, २६; वित्ता
१, ५७; ३, २२; ४, १७.
रुद्र-दण्ड- -०ण्ड व ४३५: ९.
रुद्र-दैव(ल्य)> ल्या- -ल्या अ१; गार
४०६: २०.
रुद्र-नेत्र-समुद्भव- -वम् हजा २,
१६.
रुद्र-पति- -०ते लि ३०२: ७.
रुद्र-पूत- -त: वृजा ८, १; नृपू ५,
१२; राउ ५, ४; पं ४, २३.
रुद्र-मि(व)> या- -याम् व ४५६: १.
रुद्र-भवन्^१ - -ने लि ६, १८७.
रुद्र-मण्डल- -लम् व ४३८: १२.
रुद्र-मन्त्र- -म्रेण शि ५, ३२; -म्रे:
भ १, ४.
रुद्र-मातृगण- -गानाम् शि ४, १६.
रुद्र-यु(लु)> का- -का रापू ४,
६२.
रुद्र-रूप- -ये योशि ५, ५४.
रुद्र-लोक^१ - -क: राधा १, ९; १०;
-के सार २४२: १४; शि ६, ११;
१७; २०; २३; २५; ५०; ८२;
८६; २०१; २७५
रुद्रलोक(कई)न- -ना: शि ७,
१३९.
रुद्र-वर्णा(यो-आ)सक- -क: रा
२, ५०.
रुद्र-वेदी- -दी शि ४, १५.
रुद्र-शिख-पुष्करिणी- -ण्याम् सार
२५५: २१.

रुद्र-संज्ञा>ज्ञ- -ज्ञ: वड ३, ५८.
रुद्र-सूक्त- -केज भ २, २३; -कै:
भ २, २; ३; २०.
रुद्र-स्नान- -नम् भ २, २१.
रुद्रा(द्र-श्र)क्ष^१ - -क्ष: वृजा ७, ८;
हजा ३, १; -क्षम् वृजा ७, ८;
हजा १, १२; १९; २, १; ३-६;
८; ९; ११; १२; १४; ३, १९^१;
-क्षा: वृजा ७, ८^१; ९^१; हजा १,
१; ३, १^१; ९^१; सिशि ३८१: २३;
३८२: १; -क्षानाम् हजा २, १;
-क्षामि हजा १, १२; -क्षान् भ
२, २; -क्षे वृजा ७, ८^१; हजा ३, १^१.
रुद्राक्ष-गण-दर्शन^१ - -नम् सु
१, १, ३७.
रुद्राक्ष-जाबाल^१ -
रुद्राक्षजाबालो(ल-उ)पनि-
पद् - -पद्म् हजा ३, १.
रुद्राक्ष-स्व- -स्वम् वृजा ७, ८;
हजा ३, १.
रुद्राक्ष-धारण- -णाल हजा १,
६, २, १८; म २, १६^१; -जो
सिशि ३८१: २.
रुद्राक्षधारण-विधि- -धिम्
वृजा ७, ८; हजा ३, १^१.
रुद्राक्ष-भूषण- -ण: भ २, २०.
रुद्राक्ष-मूल- -लम् हजा २, १९.
रुद्राक्षा(ल-श्र)भरण- -णा: भ
२, २७.
रुद्राक्षो(ल-उ)पत्ति- -त्ति: हजा
१, १.
रुद्रा(द्र-श्र)भि- -भिम् शि ४, २४;
-भै: वृजा ५, १७.
रुद्रा(द्र-श्र)क्षी- -क्षीम् व ४३४:
२३.
रुद्रा(द्र-श्र)दि- -दय: सार २५७:
१७; १८; -दिना सार २९२:

१६; -दिभि: सार २३५: १६;
-दीनाम् कृ २
रुद्रा(द्र-श्र)दित्य- -त्या: गी ११,
२२.
रुद्रादित्या(ल-श्र)दि-रूप-
(रथ)> रथा- -रथा सर २, ५.
रुद्रा(द्र-श्र)राधन-तत्पर- -र:
अना २.
रुद्रा(द्र-श्र)कै- -कै वृजा ४, २२.
रुद्रे(द्र-ई)श्वर- -र: गोउ २३.
रुद्रे(द्र-ई)कादशा-दैवत- -तम् हजा
२, १३.
रुद्रे(द्र-उ)पासक- -का: सार
२३५: ६.
✓रुद्र^१, > रोधि, रोत्स्यति वृ १, ४, ८.
रोधयते योशि ६, ६८.
रुद्र्या गी ४, २९.
रोध- -धात् यो १, ५६; -धे नाद
४६.
रुधिर^१ - -रम् वृ ३, ९, २८, २; नाप
७; योशि १, १२५; १मन्या २,
७९; -रस्य सुवा ४.
रुधिर-प्रदिग्ध- -ग्धान् गी २, ५.
रुद्र^१ - -रु: सूता ५, ११.
✓रुद्र^१(वधा), रोहित वृ ३, ९, २८, ४;
शि ६, ४०; ९^१रोहन्तु व ४३८:
१९; ४३२: ६; १६; ४४०: ३;
१३; ४४१: २; ११; २२; ४४२:
१०; २१; ४४३: ७; १७; ४४४:
११; २१; ४४५: ५; १९; ४४६:
७; १७; ४४७: ५; १६; ४४८:
४; १५; ४४९: ३; १३; २०;
४५०: ४; ११; १८; ४५१: ४;
११; १९; ४५२: ३; ११; १८;
४५३: २; ८; १४; २०; ४५४:
३; ११; १७; ४५५: १; ८.
रुद्र^१ - -रुद्र २३ ३३: ६.

a) °द्रसूक्तैः इति अज्या. । b) तत्तदुपनिषद्वाचां समाहारे द्वस. । c) =तदाशयो-
पनिषद्विशेष- । d) °क्षाराधा° इति निसा. । e) वैपरी यद्र. । f) व्युः! =भैरवविशेष- । g) खि ५, ८४, १ ।
h) =व्याहृतिविशेष- ।

रुह-ठः योत् २, ९; -उम् महा ५, १४.

रुह-सय-घमत्का(र)रा-
-रा महा ५, ३१; वरा ४, ७.

१रोहि(न)णी^{१०}- न्ये व
४३८: २.

रीहि(ण)णी-णीम् इ १६:
२; ३.

२रोहि(न)णी^{१०}-णी कृ १५.
रीहिण्य-न्य: सं १३.

रोहिणी-तनय-न्य: गोट ४२.
३रोहि(न)णी^{१०}-णी सार २४२:
२०.

४रोहि(न)णी^{१०}-णी इ १६: १६.
रार ३, १.

✓रुक्ष
रुक्ष-क्षम् १योट ४७.

✓रूप>रूपि, अरूपयत् सार २६०:
१९.

१रूप-यम् ई १६; के २, १; क २,
१, ३; १, २; ३, १९^६; सु १, १, ९;
छां १, ७, ५^१; ३, १, ४; २-४, ३;
६-१०, २; ३; ६, ४, १^१-४^१; ६^१; वृ
१, ४, ११; १४; ५, ८-१०; २१^१;
६, १; २, ३, ६; ५, १९; ४, ३,
२१^१; ४, ४^१; १५, १९^६; मै ३, ३;
४, ५^१; मैत्रि २, ६, ३, ३; ६, ११;
१४; १५; १७; २६; मना १, ३९^६;
अधि ४, १९; कौ ३, २, ५, ७^१; ८;
१^१; वृजा ७, ४; वृ २, १३; १४;
वृ २, ४; ससा ५; लु १ १२; ते
३, ५७; ५, १०३; १योट १७;
६०; वित्रा २, १५९; सी १;
१६^१; २३; ३३; त्रि ६, १४९^६;
रार ५, ९; सु ३ ३^१; सां ३, १^१;
व ३, ८; महा ४, २४; ७०; ५,

५०; १२२^१; १२४; शारी ८;
योधि १, १५; २१; २, १५; ५,
३४; १मन्या २, १८; अय्य १;
पप ४१८: २४; अक्ष ३, १; ५,
१३; पाशु २, ४; यिता १, १; पं
१९; वरा २, ६; २०; ३, ४; ४,
३८; सार ३, २३; सु २, २,
७२; अद्रे १७; आर्ये ७: २२;
राधा १, १४; सार २२१: ८;
२२४: १४; १७; २२६:
१५; २२७: २१; २२८: १२;
२३८: १६; १९; २२; २३९: १;
२४०: ९; २४५-१०; २४८: ३;
२७२: १३; २८९: १५; २९०:
९; २९१: ५; यि ८; २२; वटु
३१६: ११; शु ४४; ६३९^६; भव
२, १७; ५८; ३, २८; ३२; वर २,
२३; ३, ९; सांका २३; गी ११,
३; ९; २०; २३; ४५; ४७; ४९^१;
५०-५२; १५, ३; १८, ७७; -यम्-
-यम् क २, २, १^१; १०^१; वृ २, ५,
१९; वृजा २, १^१; वा ११; -पत्य
योधि २, ११; गी ११, ५२; -पा
पाशु १, ८; -पाणाम् वृ १, ६, २;
२, ४, ११; ४, ५, १२; गर्भे ५^१;
सुया १३; -पाणि छां ६, ४, १-४;
वृ १, ६, २^१; ३, २, ५; ९, १२; १५;
२०^१; ४, ३, ७; १३; ६, ४, २१९^६;
शे २, ११; ५, २; ११; १२; अना
१५; कौ १, ७; ३, ४^१; ६; सुया
१३; छां ३, १; योधि ४, ६;
मवा ८९^१; शौ ५२: ७; नाप ५,
३१; पा ७, ५; सार २२४: १;
३, ५; २३९: १४-१६; २४७:
१३; २१; २५४: ७; २७७:
१९; २८३: १९; सु ७; भव २,

२४; गी ११, ५; -यात् छां ३,
६-१०, २; ३; -पाम्यात् वृ १,
४, १५; -ये वृ २, ३, १; मै ५, ३;
मैत्रि ६, ३; १५; गर्भे १; अक्ष २,
३८; सार २४०: ८^१; -येण छां
८, ३, ४; १२, ३; ३; वृ ३, २, ५;
मै २, २; मैत्रि २, २; पाशु २,
४२; शौ ५२: १९; ५३: ९; १०;
सं १०; सार २२४: १५; २२८:
९; २३३: ७; २३८: १७; २४०:
६; २४४: ७; २५२: २१; २५३:
३; २६०: १२; १७; २६३: १९;
२६४: ११; २७२: १; १२;
१७; २८०: १७; २९१: ५; सां
३, ७३; गी ११, ४६; -^१वेम्यः
मना २, १९; व ४६२: २३; -पेयु
वृ ३, ९, २०; सार २३९: १६;
-ये: वृ १, ६, २; कौ ३, ३^१; ४,
१९; सां ३, ७३; सांका ६३.
रूप-क-के मैत्रि ६, ३६.
रूप-कल्पना-ना रापु १, ७.
रूप-कार्य-समाख्या-ख्या: गौ
३, ६.
रूप-गुण-गण: वित्रा १, ९.
रूप-ग्रहण-गणम्. नाप ६, १.
रूपग्रहण-कार्यो(र्य-उ)दप-
-यात् अता १०.
रूपग्रहण-प्रयोजन-नस्य
अता १०.
रूपग्रहण-योग्यता-ता भा
२९.
रूप-ज्ञान-नम् त्रि ५, ७.
रूप-तन्मात्र-सहित-तम् महा
५, १४९.
रूप-व-स्वात् वरा २, ६८.
रूप-निबन्धन-नात् सां ५,
८९.

a) वृ. सस्य. टि. तद्-> तथा । b) धा. अर्थः? =नक्षत्रविशेष- । c) धा. अर्थः? =धरामज्जन्नी- ।
d) धा. अर्थः? =गोपीविशेष- । e) धा. अर्थः? =नववर्षीयकन्या- । f) =वीजमन्त्रविशेष- । g) तैत्रा १०, १, ३ ।
h) का ४०, १, १६ । i) षः इति शब्दाः । j) षादीनाम् इति श्रान., शब्दाः । k) छ १०, १८४, १ । l) तैत्रा ३,
१२, ७ । m) वृ. सस्य. गप. वृ ४८१, 1 । n) मैसं २, १, १० । o) दू^१ इति शब्दाः संटि. ।

रूप-परिज्ञान- नम् ४७ ५०.
 रूप-प्रतिकृति-युत- तानि
 सार २७१ : ५
 रूप-लावण्य-बल-वज्रसंहनन-
 नानि योसू ३, ४७.
 रूप-लावण्य-युत- ताः सार
 २५३ : १५.
 रूप-वत्- वत् अव्य १; गोउ
 ८; सार २४८ : ९; -वाम् वउ
 २, १४.
 रूपवत्-ता- -ता भवउ, १०.
 रूप-वर्जित- तम् ते १, ६; ४६
 ३१; गोउ ३२.
 रूप-विद्- -विदम् कौ ३, ८४.
 रूप-शालिन्-नी- नी सार
 २४३ : २३.
 रूप-शोभा-संचरित-रस-
 रूपशोभासंचरितरस-
 संवादि-गुण-गणना-भावा-
 (व-अ)भाव-संवादिन्-
 -दिभ्याम् सार २४८ : ८.
 रूप-(स्थ)रूपा- स्थानाम्
 राष्ट्र १, ८.
 रूपा(प-आ)कर्वि(र)णी-
 -णी आथ ३९, ५ : ६.
 रूपा(प-अ)मि- -मिभ्याम् गोउ८.
 रूपा(प-अ)वीत-स्वरूप- -पः
 ते ३, १२.
 रूपा(प-आ)दि- -दिषु सांकार८.
 रूपादि-मत्-
 रूपादिमत्-व- -वाम्
 वसू २, २, १५.

रूपादि-रस-मला(ल-अ)-
 न्त- न्तः सांस् २, २८.
 रूपा(प-आ)सकि- -किः सार
 २५१ : ३.
 रूपो(प-उ)पन्यास- -सात् वसू
 १, २, २३.
 ररूप- रूप द्र.
 ररूप^१ वषं ३१२ : ५.
 ररूपसामान्याद्यर्थसामान्यान्य-
 न्यदीयः^१ २ प्र ३५ : ९.
 रूष्य^१-
 रौष्य^१- -ष्यम् लि ६, १२३; गिति
 ३८२ : ११.
 रौष्य-(ज)जा- -जाम् यो २,
 ४४.
 रौष्य-वृद्धि- -द्धिः यो १, ८०.
 ररे^१ रे-रे व ४२८ : ७.
 ररे^१ भव २, ३३.
 रेखा- /रिख् द्र.
 रेच- , रेचक- , रेचन- , रेचयित्वा,
 /रेधि, रेचित- /रिच द्र.
 रेणु^१-
 रेणु-(क)का-
 रेणुका-योगि(र)णी- -नि व
 ४३६ : १९.
 रेत^१-
 रेत-भोजन- -नाः इ १३ : १२.
 रेतस्^१- -तः प्र १, १४; सुं २, ५, ५; ऐ
 १-२, ४; ४, १; छां ५, ७, २;
 ८, २; १०, ६; वृ १, २, ४; ३, २,
 १३; ७, २३; ९, १७, २२; ६, १,
 ६; १२; १४; २, १३; ४, १; ४; ५;

१०; ११; २०; कौ १, २, ६; वृजा
 १, १९; वृषू १, १९; मर, ३०;
 इ १२ : १४; निरु १, ५; सां
 २४३ : ९; १०; वउ २, ३४;
 -तसः ऐ १, ४; छां ३, १७, ७९;
 वृ १, ४, ६; ३, ७, २२; ९, २८, ५;
 'योगि १, १३७; निरु १, ३; -तसा
 वृ ६, १, ८-१२; ४, १०; ११; इ
 १२ : २०; -तसि वृ ३, ७, २३;
 ९, २२; -तसे वृ ६, ३, २; -तसि
 व ४३७ : १०.
 रैतस- -सः वृ २, ५, २.
 रेत-सिग-योग- -नाः प्रसू ३, २६
 रेतो(तम्-अ)तिरेक- -कात् गर्भे ३.
 रेतो-भक्षिन्- -क्षी भू २, २१.
 रेतोबुद्ध्यापमनस्स्वरूपम्^१ लि
 ३१० : ९.
 रेफ^१- -फः (फे) रार ५, ५.
 रेफ-विन्दु-युक्त- -क्तम् सां १, ५.
 रेफा(फ-अ)क्षर-समुच्चल- -लम्
 १योत ९२.
 रेफा(फ-अ)क्षर-समुच्चल- -वम्
 १योत ९२.
 रेफा(फ-अ)नुमहे(ह-इ)न्दु-नाद-
 शक्त्या(कि-आ)दि- -दिभिः
 राष्ट्र ४, ५५.
 रेफा(फ-आ)रु(ड)वा- -वाः राष्ट्र
 २, ३.
 रेश्व^१-
 रेश्व- -वम् मना २, १२, १; २,
 ४०; व ४४२ : २०; ४४८ : ४;
 ४५२ : १०.

a) 'द्रष्टारम्' इति शांआ ५, ८ । b) 'स्वरसवा' इति पा.१ यनि. शोधः द्र. । c) 'सवर्गो' इत्यपि पा. ।
 d) पा. वृद्धितः । e) पा. 'रूपसामान्यात्, अर्थसामान्यम्, जेदीयः' इति पदत्रयात्मकः शोधः द्र. (ह्र. गोश १,
 १, २६) । f) व्यु.ः = रजत- । g) इदं पदं स्थानतो व्यत्यस्तं सत् 'विश्व' (>श्वे) इत्यतः प्राक् पाठतः सु-शोधम् [वृ.
 सस्थ. टि. रदेव (विश्व-)-> श्वेः (-श्वे) > श्वैः, रविश्व(रदेव-)-> श्वे (श्वैः [-श्वैः]) । h) व्यु.ः = बीजमन्त्रविशेष- ।
 i) व्यु.ः = सं. अथय. । j) व्यु.ः । k) = रेतम्- । l) वैपरी यद्र. । m) 'एतत्' इति आन., अख्या. । n) अ १०,
 १२९, ४ । o) अ ८, ६, ३० । p) अ ८, ४, १६ । q) पा. 'रेतो-बुद्ध- > 'दाय (नाधा.) > 'मान- > 'स्वरूप-
 (वस.) > -पम्' (प्र.) इति शोधः द्र. । r) व्यु.ः = वर्षविशेष- । s) निसा.१ यनि. शोधः द्र. (ह्र. अख्या.) । t) = दम्बो-
 बीजाक्षर- । u) 'पा' इति अख्या. । v) अ ९, ९६, ६ ।

रि, रिखन्- रि द्र.
 रिज्, रिजयत्- रिज् द्र.
 रेवा(त्)ती¹⁰- स्यः छां २, १८, १; २.
 रेवा(त्)ती¹⁰- स्ये व ४३८:५.
 रिपि रिपि द्र.
 रै- रायः पा ७, १०; रायाम् पा १, ५; ७, १०; रै¹⁰राये रै १८; घृ ५, १५, १.
 रै(रपति)- रायः वृ १, २.
 रै(पोप)- रायः त्रिता ४, २५; भ १, ११; ना ३; गोच ६७:१८; वपू १, ६; ७.
 रै¹⁰ रार ३, १.
 रैक¹⁰- क छां ४, २, २; ४; -कः छां ४, १, २; ५; ८; सुवा ७; ९; १०; ११; १५; अघ्या ७०; -कम् छां ४, १, ३; ५; -काय सुवा ७; अघ्या ७०.
 रैकव-पर्य¹⁰- णाः छां ४, २, ५.
 रैतस- रेतम्- द्र.
 रोक¹⁰- काणि पित्र १, १०.
 रोग- रोगिन्- रू द्र.
 र-रौचन- रौचमान- रौचिष्णु- रू द्र.
 रोदन- रू द्र.
 रोदम्- दसी अव्य २; गु १६; -दसी संन्या १७: २६^h.
 रोदसी- स्योः आं ७:२२; सूता १, १.
 रोदि रू द्र.
 रोध- रोधि रू द्र.
 रोपखा(क>)का¹⁰- कासु सूता २, १६.
 रोमन्¹- मणि छां ८, १२, १; गर्भ ५;

निक २, २; शि ७, ५३; -मिण शि ६, २०२.
 रोम-कूप- णाः वृजा ७, ४; -पेषु घ्या ९८.
 रोम-माग्र- णम् यो २, २५; ३०.
 रोम-हर्ष- र्पः गी १, २९.
 रोम-हर्षण- णम् गी १८, ७४.
 रोय रू द्र.
 र-धरोहिणी- रू द्र.
 रोहित¹- ररोहित¹⁰- तः इ १९:१६; -तम् छां ३, १, ४; ६, ४, १-४; ६.
 रोहितो(त-उ)च्छिष्ट- ष्टः मन्त्रि ११.
 रौ¹⁰ रार ३, १.
 रौकम- रू द्र.
 रौद्र- रू द्र- द्र.
 रौष्य- रूष्य- द्र.
 रौरव¹- वम् नाम ३, २९; इ १३:१६; १४:१२; १७:२२; -वे इ १९:१२; भव १, ५४.
 रौहिणी- रौहिणेय- रू द्र.
 ल
 ल¹⁰ व ४२९: ७.
 ल(ळ)-कार- रः त्रिता १, २८; ४७; -रम् घ्या ९६; रार २, ९८; -रेण १योत ८६; त्रिता १, ३०; ३१.
 लकार-व(र्ज>)र्जा- र्जा त्रिवि ७, ४६.
 लकारा(र-अ)र्ध- र्धः त्रिता १, ४७.
 लकारोम्¹⁰ ह ९९.

ल-वर्णक- -कम् १योत ८५.
 ला(ल-अ)न्त¹⁰- न्तः राप् ४, ११; ६३.
 लं¹⁰ रार २, १९; आष ३९६: २; व ४२७:२२; हंपो १२; लं-लं सार २६०: २२; लं-लं-लं लां २१६: ७.
 लं-कार- -र अच् ५.
 लञ्, > लक्षि, लक्षयेते २, ३९; महा ५, ९९; ११२; अक्षि ३६; त्रिता २, १; वरा ४, १५; लक्षयेत योशि १, ४१.
 लक्षयेत् मै ४, ४, १०; मैत्रि ६, ३४^h; त्रिता २, १५१; योशि १, १५९; १६०.
 लक्षण- णम् अना १२-१५; सता १, ३६; तेषु, ७८; १योत २१; २८; नाप ३, ५४; महा ५, ९; योशि १, ७९; ८९; १०३; १५६; पाशु १, १८; यो १, ३; ४१; गार ४०६:१०; -णात् योशि २, १०; -णानि यो २, २२; सार २३१: ४; २३४: २०.
 लक्षण-शु(न्य>)न्या- न्या त्रिवि ३, ७.
 लक्षण-संपन्न- -न्नः इ ७.
 लक्षणा¹⁰- लक्षणा-प्रथ-विज्ञान- नम् ते ६, १०६.
 लक्षणा-शून्य- न्यम् गौ ४, ६७.
 लक्षित- तः गौ २, ३०; -ताः गौ २, ६; ४, ३१.
 लक्ष्मन्¹⁰- क्षम वृजा ७, ७; अच ४, १; १अव १.

a) व्यु. १ = सामविशेष- । वैपश् यद्र । b) व्यु. १ = नचत्रविशेष- । वैपश् यद्र । c) वैपश् यद्र । d) ऋ १, १८९, १ । e) = बीजमन्त्रविशेष- । f) व्यु. १ । g) व्यु. १ = छिद्र- । h) ऋ १, १०५, १ । i) ऋ १, ५०, १२ । j) = लोमन्- । वैपश् यद्र । k) लो¹⁰ इति श्रद्ध्या । l) व्यु. १ = वर्षोविशेष- । m) = वर्षोविशेषवत्- । n) = वर्षो- वा बीजमन्त्रविशेष- वा । o) °र्जा इति निशा । p) तु. गप्. ५१७३b । q) सका¹⁰ इति निशा । r) = वकार- बीजाक्षर- । s) तु. गप्. ५२२१h । t) तु. गप्. ५२३३c । u) 'लक्षयेते' इति सात । v) = चिह्न- । वैपश् यद्र ।

लक्ष्य-क्षयम् सुं २,२,३; पहं ४;
 शु ३,१०; ते २,६; ४१; ४,१७;
 ५,७८; ध्या १४; ९३,१५; नाप
 ३,८६; अता ७; शां १,७,१४;
 अघ्या ५३; ५४; मं १,४,२;
 रह-३९; -क्षयेते १,३८; मं १,
 ३,५; वरा ५,५७; -क्षयेषु मैत्रि
 ६,२४.
 लक्ष्य-त्रया(य-अ)नुसंधान-
 -नम् अता ४^७.
 लक्ष्य-त्रया(य-अ)वलोकन-
 -नम् मं १,२,५.
 लक्ष्य-लक्षण-कारण- -णम् वरा
 ५,५६.
 लक्ष्य-लक्षण-हीन- -नः ते ५,
 ७१.
 लक्ष्या(विष-आ)यन्- -रमा ते
 ४,३५.
 लक्ष्या(द्वि-आ)दि-विश्रजित-
 -तः ते ५,६४.
 लक्ष्या(द्वि-अ)लक्ष्य- -क्षयं २,
 ३,७.
 लक्ष्यालक्ष्य-नाति- -तिन्
 महा ४,८५; १आ १९.
 लक्ष्यालक्ष्य-निवर्तक- -कः
 ११ ४२० : १६; वा २,१^७.
 लक्ष्यालक्ष्य-विहीन- -नः
 मैत्रे ३,१३.
 लक्ष्यै(द्वि-ए)क-ता(न>)ना-
 -ना शां १,७,१५.
 लक्ष्यमा(ए)>ण- -णा सी १६.
 लक्ष्^{१०}- -क्षः अना ३४; -क्षम् रा
 २,९४; हजा १,४; सार २४४;
 ८; कलि ४०१ : १३; ४०३ :
 १९; तारा ८४ : ५; वपू २,५.
 लक्ष-क- -कम् शि ४,४३.

लक्ष-कोटि-विहार-रूप-
 लक्षकोटिविहाररूपिन्- -पिणे
 सार २७७ : १५.
 लक्ष-कोटि-दात- -तानि हजा १,५.
 लक्ष-कोटि-सहस्र- -स्राणि हजा
 १,५.
 लक्ष-अप- -पः सी १,३.
 लक्ष-अदान- -नस्य शि ६,२२४.
 लक्ष-मात्र- -अम् नापू ४,२९.
 लक्ष-नास्(>) महा ५,१३६.
 लक्ष-सूर्य-समुज्ज्वल- -लम् राधा
 २,२.
 लक्षा(त्रि-अ)र्ध- -र्धम् शि ६,२१६.
 लक्ष्य-लक्षणा-, √लक्षि, लक्षित-
 √लक्ष् इ.
 लक्ष्मण^{११}- -णः रार २, ९९; रापू ४,
 १८; ता २,३; ३,६; ८; -णम् रार
 १,७; रापू ४,३३; ३६; -णाय
 रार २, ९८; -णेन रार २, १३;
 १४; ४६; रापू ४,१०.
 लक्ष्मण-प्राण-प्रतिष्ठा(छा-आ)-
 नन्द-कर- -० रार १४ : १३.
 लक्ष्मन्- √लक्ष् इ.
 लक्ष्मी^{१२}- -क्ष्मि सार २४९ : १३;
 २५३ : ७; २५६ : १३; २७८ :
 १६; २८० : ११; २८३ : ४; २८७ :
 १३; २१; २८९ : १; २९० : १७;
 २९२ : १८; -क्ष्मीः मना २,
 ६४^{१३}; वपू ४, ११^{१४}; सी १६;
 ३७; राउ ४,२३; त्रि ६; हह
 १८; कुल ७१ : २; नापू २,५;
 ४,४; ९^{१५}; ५,२७; राधा ४,२;
 सार २२० : २१; २२१ : ५; २४३ :
 ४; २४८ : ३१; २५२ : १९;
 २५४ : २२; २५६ : ९; २५७ :
 ६; २७२ : १९; २७४ : ३; २७५ :
 २; २७८ : २२; २७९ : ५; २८० :

१३; २८२ : १७; २८५ : १०;
 २८८ : २०; २८९ : १३; २९० :
 २३; २९१ : ४; ४४६ : ८; तारा
 ८३ : २४; अर्द्धमा १४; वपू २,
 ३; -क्ष्मीम् मना २,६३^{१६}; वपू
 १,७^{१७}; ३,४; ४,२; त्रि ६,२३;
 त्रिता १,८०; २,३१; सार २११ :
 १; २५३ : १; २८० : ६; ४४५ :
 १७; वपू २, २; -क्ष्म्या त्रिशि
 ३८३ : २; -क्ष्म्याः सार २५० :
 १५.
 लक्ष्मी-कान्त- -न्तः सार २७५ :
 १३.
 लक्ष्मी-दुर्गा-विजया(या-आ)दि-
 -शक्ति- -क्तिः राधा १,१९.
 लक्ष्मी-नारायण^{१८}- -णः नापू २,
 १८; -णम् नापू ४,१३; ६,४;
 -णाय नापू ३,१२.
 लक्ष्मीनारायण-देव(ल)>ल्य-
 -त्ये नार ११.
 लक्ष्मीनारायण-हयग्रीव-
 गोपाल-दधिवाहन-अन्त्र-
 -न्त्राः त्रि ७,३५.
 लक्ष्मीनारायणोप- -पः सार
 २२० : १९.
 लक्ष्मी-विधि^{१९}- -धये त्रि ७,४२.
 लक्ष्मी-भर्तृ- -र्तुः भव २,३५.
 लक्ष्मी-रूप- -पः कृ १६.
 लक्ष्मी-लज्ज(उलि-कान्त्य(न्ति-अ)-
 नेका(क-आ)कार- -राय सार
 २७७ : २०.
 लक्ष्मी-वाहू-मन्मथ(य-आ)दि^{२०}-
 -दिः रार २,१७.
 लक्ष्मी-वासुदेव- -वाय त्रि ७,
 ३५.
 लक्ष्मी-समेत- -त्ताय नाउ २, ७.

a) °क्षयः इति निप्ता. यनि. शोषः इ. (तु. अख्या.) । b) °नः इति निप्ता. । c) °क्षयम् इति निप्ता. यनि. शोषः इ. (तु. अख्या.) । d) °क्षयनिर्व° इति निप्ता. यनि. शोषः इ. (तु. अख्या.) । e) व्यु. १ । f) व्यु. १ पाण. (५,३,१००) < लक्ष्मी- इति । g) वप्र. वैप १ यद. । इह = देवविशेष-, धन-, बीजाक्षरविशेष- प्रम्. । h) तैत्र्याआ १०,६४ । i) अ १०,७१,२ । j) तैत्र्याआ १०,६३ । k) पूष. = बीजाक्षर- ।

लक्ष्मी-सहाय- -यः हे ६.
 लक्ष्म्य(दमी-अ)प्र- -मे सार २३६;
 २३.
 लक्ष्म्या(दमी-आ)लिङ्गित- -तेन
 महा ४, ३१.
 लक्ष्य- , लक्ष्यमाण- √लच् द.
 √लग्, लगति नाद ३८; योश् १, २७; ३३.
 ल(भ>)भा- -भा योशि १, ३३;
 -भायाम् योशि १, ११४.
 लघु^१- -घु यो १, ३६; सार २४४; २१;
 सांका १३.
 लाघव- -वम् गी २, ३५.
 लघि(मन्)>मा^१-
 लघिमा-सिद्धि- -द्धिः आय
 ३९३; ३.
 लघु-कोमल-मणि- -णयः सार
 २५३; ५.
 लघु-चेतस्- -तसाम् महा ६, ७१.
 लघु-न्ता- -न्ता शां १, ७, ४.
 लघु-तल-समापत्ति- -त्तेः योस् ३,
 ४३.
 लघु-स्व- -स्वम् श्वे २, १३.
 लघु-देह- -हः त्रिमा २, १०७.
 लघु-दीप्ति-बहिष्कृत्-नादाभिष्य-
 क्ति- -त्तिः शां १, ५.
 लघु-प- -पानि स्व ६१; १०.
 लघु-पिण्ड- -पण्डः महा ३, ४२; या
 २, ८.
 लघु-मुण्ड- -ण्डः कथु ३, ११^b.
 लघु-वस्त्र- -स्त्रम् शि ७, ६३.
 लघु-श्याम(ल)>ला^१- -ला व २१.
 लघ्व(घु-अ)शान- -नम् नाप ४, १२.
 लघ्वा(घु-आ)दि-धर्म- -र्मैः तास्
 १, १२८.
 लघ्वा(घु-आ)शान्- -शाना योशि
 १, ९०; -शी गी १८, ५२.
 लघ्वा(घु-आ)हा- -राः १योत २८;

नाप ६, १; २९.
 लंकार- -ल द.
 √लङ्प्>लङ्गि, लङ्गयेत् इ १६; २;
 ३; शि ७, ६९.
 लङ्गय- -यन् शि ७, २८.
 √लज्ज्, लज्जते महा ६, ७६.
 ल(ज्ज>)जा- -जा १योत १३; शां
 १, २; योशि १, ११; त्रि ६९^{१०};
 जाद २, १०; सार २३४; ६९^{११}.
 लज्जा-व(त्)>ती^{१०}- -ती सार
 २७२; ४.
 लता^{१०}- -ताः सार २३३; ९; २३७;
 १२; २५९; १०; १२; २६९;
 २३; -तानाम् सार २३७; ३;
 ७; २६६; ११; -ताभिः सार
 २३३; १२; २६९; १८; -तायाम्
 सार २६६; ६; २८२; ६.
 लता-कस्तूरिको(का-उ)पल^१- -लम्
 शि ६, ५०.
 लता-प्रथित- -ताः सार २२२;
 १०; २८१; २२.
 लता(ता-अ)न्तर(>)सार २७१; ४.
 लता(ता-अ)न्तर- -राः सार २८७;
 ११^१; -रे सार २८२; १४; -रेषु
 सार २८७; ८; -रैः सार
 २२२; ९; २३; २२५; ८; १२;
 २२९; ५.
 लता-परीक्षा-कोवि(द)>दा^{१०}-
 -दा सार २६३; ५.
 लता-प्रकीर्ण- -गाः सार २५४; २.
 लता-प्रतान-
 लताप्रतानि(त्)>नी- -न्यः
 सार २५३; ६.
 लता-रूप- -पम् २कौल ११.
 लता-व(त्)>ती^{१०}- -ती सार
 २८३; १५.
 लता-वृक्ष-(श)>शा^{१०}- -शा सार

२६३; ४.
 √लप्>लालप्
 लालप(त्)>न्ती^{१०}- -न्ती त्रि ६.
 लभ्, लभ्वा नाउ. द.
 √लभ्, लभ्, >लिप्त्, लभते छां ३,
 १२, ९; ७, २२, १; ८, १, १; १;
 गी ४, ७६; मैत्रि ६, २१; ना ५;
 कौ२, ३^{१०}; १योत २२; २योत २,
 १; २; योशि १, ४; सू ३२; यो
 २, ६; लभति मैत्रि ६, २२^१;
 लभन्ते छां ६, ९, २; मैत्रे १,
 ४, १३; राउ ३, ७; गोठ २६;
 सु १, २, ७; सार २५८; १४;
 कालि ४०२; ३; गी २, ३२; लभे
 गी ११, २५; लभस्व गी ११,
 ३३; अलभे छां ४, ४, २; ४;
 अलभम् सार १, २; लभेत मै ४,
 ४, ९; शु १, ६; नाप ६, ८; यो२,
 २२; जाद २, ६; शि ५, २१; काम
 १^१; कामे ११; कालि ४०२; ६; युयो
 ४२०; ४; लभेमहि छां १, १०, ६.
 लभिरे पित्र ५, ४^१; लभस्यामहे
 क १, १, २७.
 लभ्यते सुवा ९; १योत १२७;
 अता १२; योशि १, ५२; १संन्या
 २, ९२; अज १, ४५; १आ १;
 २आ ३; कुं २०; यो २, ६;
 लभ्येत ऋषि ३४.
 लिप्सेत नाप ५, १९.
 लब्ध, लब्धा- -ब्धः १संन्या-२, ३१;
 या २, १५; सिशि ३८२; ७;
 -ब्धम् वृजा ३, १; ६, १२; २योत
 १, ७; लपू ५, १०; अज ५, ५६;
 वजा ३, १; गी १६, १३; -ब्धा सार
 ३, ११; कालि ४०२; ८^१; गी १८,
 ७३; -ब्धायाम् अज १, ३५;
 -ब्धे वृजा २, १४.

a) =विप. । वैप१ यद. । b) दण्ड- इति उप. प्रकरणयोचितं स्यात् (तु. मूको.; वैतु. संटि ।) c) =आव-
 रणदेवताविशेष- । d) =सतीविशेष- । e) व्यु. ? । f) समाहारे द्वस. । g) पा. ? 'लतास्वर- > -राः' इति शोधः
 द. । h) 'लभेत' इति अख्या. । i) 'ते' इति सात. । j) 'स्मरेत्' इति ताव्यि. ।

लब्ध-काम-मात् राप् ५, १०.
 लब्ध-पद-दः अक्ष ४, ६९.
 लब्ध-योग-गः योशि १, ७८.
 लब्ध-योग-नि(श)३-
 -द्रस्य शां १, ७, १८.
 लब्ध-शान्ति-पद-दम् वै
 ४, ९.
 लब्धा(ब्ध-अं)श-नाम् वउ ५,
 ३१; ६, ३; ३५; -नोन वउ ६, ३४.
 लब्धा(ब्ध-अ)तिशय-योग-
 -गात् सास् ४, २४.
 लब्धा(ब्ध-अ)श्मन्-रमा
 १ संन्या २, १६.
 लब्धा(ब्ध-अ)सु(श)३-
 -ञः पित्र १, ६.
 लब्ध-दधा क १, २, ७.
 लब्धा क १, २, १३; २, ३, १८; तै
 २, ७, १; छां ७, २२, १; अना
 १७; कौ २, १; नृउ ९, २०; शु
 १, ८; ऋयि २८; सं २, ४, ४; द
 २०.
 लभ्य-भ्या-भ्यः क १, १, २३; २,
 ७; २३; सुं ३, १, ५; ३, ३; ४;
 रा १; स ३७९; १२; गौ ८,
 २२; -भ्यम् शां १, १; यो २,
 १०^३; -भ्या पाशु २, ३२.
 लभन-
 लभनीय-याः क १, १, २५.
 लभुक-कः छां ५, २, २.
 लभ-सः तै ४, २६; पित्र २, ४;
 -भम् योशि ३, १३; गौ ६, २२;
 -भात् शि ६, १८४; -भे नाप
 ५, ६.
 लभा(भ-अ)लभ-भयोः जा
 ६^५; -भे नाप ३, ८६^६; -भौ तै
 ३, ५६; भि १०; तुअ १४; पप
 ४१९; ८; १४; या २, १^३; गौ २,
 ३८.

लाभालाभ-रत-तः पप
 ४१९; १५.
 लाभालाभ-विवर्जित-ते
 योशि १, १५८.
 √लभ्, लभ् लभति मना २, १३, २;
 महा १, १; च २१; १.
 लभ्य-
 लभ्य-नासि(वा)क-कम्
 वपु २, २.
 लभ्यो(भ्य-उ)दर-रः हे १२;
 -नाय ग १^५.
 लभ्योदरी-रि हंपो १२;
 तारा ८३; १५.
 लभ्यो(भ्य-ओ)ष्ट-ष्टम् वपु २, २.
 लभ्यक-कैः शि ६, १३७.
 लभ्यिका-
 लभ्यिको(का-उ)र्ध्व-
 लभ्यिकोर्ध्व-वस(>);
 ध्या ८३; योचू ५७; योशि ५, ४१.
 लय-, लयन-, लयली, लयलीय-
 मान-लो द.
 √लल् लालि, लालयेत् मु २, २, ७.
 लल(>)ना-
 ललना-स्तन-नः महा ३, ४२;
 या २, ८.
 ललित-
 ललिता(त-अ)श्र(र)रा-ना
 सर ३, ९.
 ललिता(त-अ)ख्या-ख्य-
 -भ्यम् व १४.
 ललिता(त-अ)श्मन्-श्मा तै
 ४, ३५.
 ललि(त)वा-ता वि ६;
 राधा १, १९; सार २२३; २;
 २२६; २, २६२; २२; २६७; ३;
 २६८; ६; -नायाम् सार २५२; २.
 ललिता(त-अ)दि-दयः सार
 २२५; १३; २६८; २२; २६९;
 २१; -दिः राधा ४, २.

ललितादि-संस्तुत्य-देह-
 -हाभ्याम् सार २४७; २२.
 ललिता(त-अ)या-याः
 सार २६७; २३.
 ललिता-प्रतिक्षण-मुख-दाह-
 -त्रे सार २७७; १५.
 ललिता-विशाखा(ख-आ)दि-
 -दयः सार २७०; ६.
 ललिता-विशाखा-श्टारवस्था-
 (ती-आ)दि-दयः सार २४०;
 ११.
 ललिता-विहार-
 ललिताविहारिन्-रिणे
 सार २६०; २३.
 लालन-भाव महा ५, ८०; गुपो
 ४२१; १.
 लालया-
 लालयाम(म्)स(मु)वि,
 लालयामास महा २, २५.
 लाला-ला १योत ५०.
 लालित-
 लालित-कङ्कणा(रा-अ)श्री-
 -श्रीम् पा ६, ७.
 ललाट-टम् वृजा ४, २५; तै ६,
 ६; त्रिना २, ५१; १३३; गोव
 ६७; २०; सार २६५; ३; सार
 ४०८; ६; गु ९; -टस्य योति ६,
 ४८; ४५; -टस्य वृजा २; महा
 १, १^३; काला १२; जावा २०;
 च २०३; -टवृजा ४, १३; १८;
 २८; २९^३; ५, २; ११; प्या ४०^३;
 वा १९०; भि १, ६; जाद. ७, १२;
 गोव ६६; १८; कृपु २०; शि
 ५, २१.
 ललाट-क-के जाद ४, ४८; ऊ
 ६४; ६.
 ललाट-कण्ठ-हृदय-बाहुमूल-लेपु
 गोच ६६; १३.

a) भोन इति आन. । b) 'लभ्य' इति अथ्या. संदि. । c) भौ इति आन., अथ्या. । d) भौ इति अथ्या. । e) तैआ १०, ११, २ । f) =आवरणदेवताविशेष-वा सखीविशेष- वा । g) वैपश् यद. । h) टः इति आन. ।

ललाट-ज- -जैन वा ८.
 ललाट-पट्ट- -ट्टे वपं ३१३: ६.
 ललाटपट्टो(ट्ट-उ)लसत्-पीत-
 चन्द्रा(न्द्र-अ)र्ध- -धम् पी४२१:
 ५.
 ललाट-फलक- -के सु २९४: १९.
 ललाट-मण्य- -धये नाद ४.
 ललाट-स्थ- -स्थ: प्रवि ४१; -स्थम्
 ध्या ३२; २योत २,५.
 ललाट-हृदय-कण्ठ-बाहुमूल- -लेपु
 वा १३.
 ललाटा(ट-अ)म-भाग- -भो
 योशि ६,४८.
 ललाटा(ट-आ)दि-द्वादश-स्थल-
 -लेपु वा १२.
 ललाटा(ट-आ)दि-स्थल- -लेपु
 गोच ६६: ११.
 ललाम^१-
 ललाम-भूत-परस्पर-गन्धा-
 (न्ध-आ)व्य- -व्या: सार २६२:
 १३.
 १-२ललित- √लल् द.
 लव^१-
 लवै(व-ए)क- -कम् कव १.
 लवङ्ग^१-
 लवङ्ग-कर्पूरा(र-आ)दि- -दय: सार
 २२५: २३.
 लवङ्गा(ङ्गा-आ)दि- -दि राधा २,४.
 १लवण^१- -णम् छा ६, १३, १३; २१;
 वृ २,४, १२; १योत ४७; -णस्य
 मैत्रि ७, ११; -णोन छा १, १७, ७५^६.
 लवण-वर्षत- -तम् शि ६, ६२.
 लवणा(ण-आ)वक^१- -कम् शि ६,
 ७२.
 लवणा(ण-अ)म्बु-
 लवणाम्बु-वत् योशि ६, ३९.

२लवण^१-
 लवणा(ण-अ)सुर-हन्तृ- -न्ताम्
 रार २, १०४.
 ३लवण^१-
 लावण्य-
 लावण्य-वाहि(व>)नी-
 लावण्यवाहिनी-कहोल-
 वटिद्-भासुर- -रम् त्रिवि ७,
 ५०.
 लवणक- ल द.
 लशुन^१- -नम् रजा २, १७.
 लशुन-संमित^१- -तम् १संन्या २,
 ५५.
 √लस्
 लसत्-
 लसत्-कर्ण- -णम् वपु १, ५.
 लसद्-ऊर्ध्व-पुण्ड्र- -ण्टा: सु
 २९४: १९.
 लह्य^१-
 लाह्य^१-
 लाह्यायनि^१- -नि: वृ ३, १; २.
 √*ला(दीर्घ) एकल- टि. द.
 ला^१ लां २१६: १८; भाष ३९८: १९;
 व ४४८: ११.
 लाक-
 लाकि(व>)नी^१- -नी पी४२२: ११.
 लाक्षा^१- -क्षाम् शि ४, ३३.
 लाक्षा-युक्त- -कम् त्रिता ३, २१.
 लाघव- लघु- द.
 लाज^१- -जै: ग १८.
 लाजा(ज-अ)क्षत- -ता: शि ४, ४६.
 √लाञ्छ्
 लाञ्छन- -नै: गोत ५३.
 लातव्य^१- -व्य: २प्र ३५: ३.
 लान्त- ल द.
 लाभ- √लभ द.

लालन- √लल् द.
 √लालप्, लालयन्ती- √लप् द.
 *लालया-, लाला-, √लालि, लालित-
 √लल् द.
 लालील^१- -ल्लाय मना १, ७; व
 ४६३: ७.
 लाह्य-, लाह्यायनि- लह्य- द.
 लिङ्कुच^१- -चेपु शि ६, १४.
 लि(त्)क्षा^१-
 .लिक्षा-कर्षण- -णम् शि ७, ५५.
 √लिष्, लिखेत् रापु ४, १०; ४२; ४३;
 ४६; ५०; ५५; ६४; शि ६, १२१;
 १५१; तारा ८३: ११.
 लिखित(त्)ता- -ताम् नाप ४, ३.
 लिखित्वा व ४५९: १५.
 लिख्य^१ रापु ४, ४४; ४६; ४८.
 √लिङ्ग^१(वधा.)
 लिङ्ग^१- -ङ्गम् वृ ४, ४, ६; श्रे ६, ९;
 मैत्रि ६, १०; ११; ३१; तै २, ३३;
 ४, ९; ५, १०; ध्या ४५; नाप ४,
 ३१; योच् ७२; शारी ५; योशि
 २, १०; ६, ३१; अथ्या ९; ह्य
 २३; भ २, १८-२०; वा १०;
 २७; सौ ३, १; बोरा ८; २प्र
 ३४३: ६; सार २९०: २२; २९२:
 १; १२; १४; व २३; लि ३१०:
 ८; ९; १०; ३११: १; २; ३;
 ९; शि १, २४; ३७; २, १; ३;
 २६; ३०; ३, ९; १२; ७, ७६;
 स ३७८: ३; ३७९: २; ६; १५;
 १९; २१; सिशि ३८२: १५; १८;
 ३८३: ३; गु ६८; भव २, ४४;
 सांस् १, १२४; ३, ९; सांका १०;
 २०; ४०; ४१; ४२; ५२; मय
 १, ३; १५; ४, २०; ३, २, २६;
 -ङ्गस्य योशि ५, ३८; शि २, २;

a) व्यु?। b) =कालमान-विशेष-। व्यु? < √छ् इति MW.। c) विप. वा नाप. वा। वैप१ यद.। d) जैउ
 ३, ४, ३, ३। e) उप. =परिमाणविशेष-। f) व्यु? =राजसविशेष-। g) व्यु? =सुन्दर-। h) उप. < √मा(माने)।
 i) व्यु? =गोत्रप्रवर्तक-श्रुतिविशेष-। j) =बीजमन्त्रविशेष-। k) वैप१ यद.। l) अर्थ: व्यु. च? आमेयं विप. [वैदु-
 नादी. (छ. Jc.) लालेय- इति पा. (वैदु. तैआ. [१०, १, ७]), MW. नाप. इति कृत्वा =अग्निविशेष- इति। m) तैआ
 १०, १, ७। n) व्यु? =फलविशेष-। o) पा ७, १, ३८। p) वप्रा. द.। =चिह्न-, लिङ्गशरीर-, प्रायश्चित्तविशेष- प्रभु.।

मांका ५५; -ज्ञात् सात् १, १३६;
 ५, ६१; वत् १, ३, ३५; ३, ४,
 ३९; ४, १, २; -ज्ञात् वृत् ३, १०^१;
 -ज्ञानाम् सांत् ३, १६; -ज्ञानि
 वृत्ता ७, ४; गीउ २३; -ज्ञे हं ८;
 नाप ४, ३३; शि २, १; ७, ३;
 ७३; -ज्ञेन सार २९० : १५;
 सांका ५२; -ज्ञेपु २ प्र ३५ : १०;
 -ज्ञेः मैत्रि ६, ३१; वृत्ता ३, १८;
 गी १४, २१.
 लैङ्ग-ज्ञाः गौ २, २७.
 लैङ्गिक-कम् यो ३, १०.
 लिङ्ग-ग्राम-मः नाप ४, ३३.
 लिङ्ग-तृतीय-भाग-नेन शि
 २, २.
 लिङ्ग-त्रय-व्यम् वि २३.
 लिङ्ग-देश-शे योचू २०.
 लिङ्ग-देह^१-हम् स ३७९; ८;
 -हेन सर ३, १९.
 लिङ्ग-देह-नात-ताः आबो
 २४.
 लिङ्ग-देह-प्रकार-रः लिं
 ३१० : १२.
 लिङ्ग-धारण-णम् लिं ३१० :
 ५; ३११ : ४; ७.
 लिङ्ग-धारिन्-नी लिं ३१० :
 ६; चित्ति ३८१ : ११.
 लिङ्ग-नाल-लात् जाद ६, ४०^०.
 लिङ्ग-नाश-नः शे १, १३.
 लिङ्ग-प्रतिष्ठा-धाम् शि २, २२.
 लिङ्ग-भूयस्त्व-स्त्वात् वत् ३,
 ३, ४४.
 लिङ्ग-भेद-दम् ते ६, ५४; -दे
 लिं ३०९ : २.
 लिङ्ग-मान-नम् शि २, ७.
 लिङ्ग-मूल-लम् शि २, २४;
 -ले योशि १, १७२; ५, ८^०.

लिङ्ग-रूप-पान् वृत् ३, १०.
 लिङ्गरूपिन्-पिणाम् भ २,
 २६.
 लिङ्गरूपिणी-ग्याम् भ
 २, ३०.
 लिङ्ग-लिङ्गि-पूर्वक-कम्
 सांका ५.
 लिङ्ग-वत्(त्)ी-ती मै ५,
 ५; मैत्रि ६, ५.
 लिङ्ग-शरीर^१-रम् सभा १,
 २३^०; पें २, २९; सार २९१ : ३; ८.
 लिङ्गशरीर-निमित्तक-कः
 सांत् ६, ६९.
 लिङ्गशरीरा(र-आ)मक-
 -कः सार २९० : १६.
 लिङ्गशरीरो(र-उ)दय-
 -यात् सार २९२ : १.
 लिङ्ग-संकोचन-नम् ध्या १०१.
 लिङ्ग-सूत्रा(त्र-आ)मन्-
 -स्मनोः यो १, ८१.
 लिङ्ग-स्वरूप, पा-पम् लिं
 ३१० : १३; १४; ३११ : १; -पा
 लिं ३११ : ४; ८.
 लिङ्गा(ङ्-आख्या)ख्य-ख्यः
 सांका ५२.
 लिङ्गा(ङ्-अ)ङ्ग-सङ्ग^०-ङ्गः
 (ङ्गात्^१) सिसि ३८१ : ९.
 लिङ्गा(ङ्-आ)मक-कम् लिं
 ३१० : २३.
 लिङ्गा(ङ्-आ)दि-प्रितय-यम्
 सी २३.
 लिङ्गा(ङ्-आ)दि-महाण्डा-
 (एव-अ)न्त-न्तम् सर ३, १८.
 लिङ्गा(ङ्-आ)भाव-वात् नाप
 ४; ३७.
 लिङ्गा(ङ्-आ)भियेक-कम् र
 २६.

लिङ्गिन्-ङ्गिनः श्वि २९; त्रिता
 ५, १९; अवि १९; -ङ्गी नाप ३,
 १; ३; १संन्या २, ३.
 लिङ्ग(ङ्-ऐ)क्य-क्यम् लिं
 ३०९ : २.
 लिन्दु^१-न्दु छां ८, १४, १^१.
 लिप्, >म्, >लेपि, लिम्पन्ति गी
 ४, १४.
 लिप्यते ई २; क २, २, ११^१;
 छां ५, १०, १०; वृ ४, ४, २३;
 गौ १, ५; न १; ध्या ८१; अवि
 ५१; योचू ५४^१; ८८^१; आबो
 २७; महा २, ४८; ४, ६७; ५,
 १७३; योशि १, ४७; ६, ६१^१;
 १संन्या २, ३३; ३९; अज ४,
 ५९; ६१; ५, ९७; अध्या ५२^१;
 १अव ६^१; यो ३, २१; वरा ४,
 २५; इ १२ : १४; शि ५, ४;
 ४२^१; पित्र ६, ८; ११^१; गी ५,
 ७; १०; १३, ३१; १८, १७.
 लेपयेत् गोच ६७ : २०.
 लिपि^१-
 लिपि-कर्मन्-
 लिपिकर्मा(र्म-अ)पितो-
 (त-उ)पम-मः महा ३,
 ५७.
 लिपि-स्थान-ने गुपो ४२० :
 १०; ४२१ : ३; यो ८
 लिप्त-सम् १योत ३३.
 लिप्स् / लम् द.
 लिङ्गा^१ वधा.)
 लेश^१-शेन छां २, २२, ५.
 लेश-वत्(त्)ः महा ५, १७५^१.
 लेश-भाप्र-प्रम् पित्र ६, ९.
 लिङ्ग, >लेहि, लिहेष जाद ४,
 ५८.
 लेलिहसे गी ११, ३०.

a) ङ्गात् इति निसा. । b) ङ्गे ना^० इति अच्चा. संष्टि. । c) लम् इति अच्चा. । d) ङ्गं शा^० इति आन. ।

o) वृत्. >पस. । रं १) पा. इ यनि. शोधः द्र. । ह) व्यु. इ. । h) ल्प^० इति निसा. यनि. शोधः द्र. (द्र. अच्चा.) ।

i) षि इति निसा. अच्चा. च यनि. शोधः द्र. । j) धा. अर्थः ? =भाष. । k) वेत् इति निसा. संष्टि. ।

लिहान-नाः वज्र ३, २७.
 लेलिहान-नम् आप्त ८:८.
 ✓ली->लयली(>लेली), लीयते गौ
 ३, ३५^१; ४६; ते १, २८; प्रवि
 १३; मं २, १, ८; योचु ७७^१;
 ७८; शां ३, १; महा ५, १९;
 योशि ६, २२; २७; ३९; अक्ष १,
 २४; यो १, ६२; ३, २३; रुजा
 २, १; जाद १०, ७; १प्र ३२;
 १; लीयति^१ प्रवि १२; १प्र ३१;
 २१^१; लीयन्ते मैत्रि ६, ३५; पै
 ३, १^१; महा २, ४; योशि ३,
 १२^१; अव्य ७; त्रिता ५, २१;
 यो ३, २३; सार २२१: ३; ४;
 २३१: २; ३; लीयेत प्रवि १३;
 १योत १०८.
 लय^१-याः गौ २, २८; ३, ४२; ते
 १, ४१; ४, २१; १योत १९;
 योशि १, १२९; ४, ११; अध्या
 ५९; वरा २, ८०; ८१^१; योरा
 १; -यम् कै १, १४; १९; लु
 २३^१; मन्त्रि १७; २०; ते ६,
 १०४; नाद ४७; ५१; ध्या
 १०-१२; ३९; १०५; पै ४, १३;
 योशि ३, १२; ६, ३६; अक्ष ५,
 ६३; सू २०; ग ६^१; वरा २, ८०;
 ५, १०; योरा ५; १४; सार
 २३५: ४; २४३: ३; २५८: १६;
 २८३: ७; पित्र २, ९; चू १७;
 २१; -यात् योशि १, १३६; -ये
 गौ ३, ४२; ४४; योशि ४, ११;
 -येन सुभा ८.
 लय-भन्त्र-वृत्ति^१-टाः वरा ५, १०
 लय-योग^१-नाः १योत २३-२४
 लययोगो(ग-उ)द्वय-यः
 योशि १, ३५.
 लय-योग्य-नयम् मं ५, १, २.

लय-विक्षेप--ययोः सांस् ६, १०.
 लयविक्षेप-रहित-तम् मै
 ४, ४, ७; मैत्रि ६, ३४.
 लय-संज्ञा-
 लयसंज्ञित-तः योरा ४.
 लय-सामान्य-नयम् गौ १, २१.
 लय-हीन-रस-सः मैत्रे ६, १३.
 लया(य-आ)त्मन्-रमा सुभा १.
 लयन-नात् योशि २, ९.
 लयलीयमान^१-नः सार २३६: ९.
 लीन, ना-नः हं ८^१; त्रिमा २, १६४;
 २अव ३३८: ६; -नम् नाद १८;
 पै ३, १; योशि १, १२३; ५, ४८;
 मं २, १, ४; २, २; ३, १, ४;
 १संय २, १७; अध्या ६५; यो
 ३, २४; -ना लु १६; योशि ६,
 ५; अक्ष ५, १६; -नाः -ये १, ७;
 मन्त्रि १८; २०^१; नाप ९, ६; म
 २, २९; सिशि ३८२: ६; भव २, ६.
 लीन-ता-ताम् शां १, ७, १६.
 लीन-वव-रवात् मं २, ३, ३.
 लीन-वस्तु-लब्धा(व्य-अ)ति-
 शय-संबन्ध^१-न्धात् सांस् १,
 ११.
 लीन-वृत्ति-तः अध्या ४२.
 लीना(न-आ)स्य-स्याः चू १८;
 २१^१.
 लीयमान, ना-नम् शां १, ७, २१;
 -ना सार २८६: १५; -नाः सार
 २२१: ५; -ने प्रवि १३; योशि
 १, १४९.
 रलील^१-लः इ १९: १६; -लम् इ
 १९: १४.
 रली(ल>)ला^१-लया श १२; महा
 २, ४५; ५, १४५; १६२; ६, १;
 ४३; ४५; योशि १, ४३; यो २,
 ३४; सार २५१: ६; -ला सार

२६०: १३; २८६: १३; -लाः
 सार २१९: २; २२१: ७; २४१:
 १३; २५४: २१; -लाम् सार
 २२१: १; २२२: ४; २२७:
 १६; २३०: ५; २३१: ७; २०;
 २३६: १३; २४०: १२; २४१:
 १०; १४; २४२: ८; १३; १५;
 १६; २४३: २३; २४४: २;
 २४६: १३; १४; २४८: १९;
 २४९: १४; १५; २२; २५०:
 ५; ८; ९; २५१: १०; २५४:
 ११; २१; २५५: ७; ८; ११;
 १३^१; २१; २५६: १९; २३;
 २५७: ३; १८; २६८: २३;
 २६९: २१; २७५: २; २७६:
 ८; १४; २७९: ३; ७; १३; २८०:
 १; ४; ७; ८; ११; १४; २८२:
 १५; २८६: ८; १८; २०; २८८:
 १४; १५; २९०: १७; -लायाः
 सार २४६: ११; २४९: १५;
 -लायाम् सार २२९: १४; २३२:
 ५; १८; २३९: ७; २४१: १४;
 २४४: १; २४८: १८^१; २५०:
 १; २८०: १०; २८८: १६; १७;
 १९.
 लीला-कथा-यायाम् सार २४६:
 ११.
 लीला-कैवलय-स्वम् वस २, १,
 ३३.
 लीला-गृहीत-निरतिज्ञया(य-आ)-
 नन्द-लक्षण-णाः त्रिवि २,
 १५.
 लीला(ला-अ)धिष्ठान-नम् सार
 २६०: ५.
 लीला(ला-अ)न्त-ते सार २६९: १
 लीला-भाव-वः सार २३८: १४.
 लीला-भोग-नाः महा ५, ७३.

a) 'चिन्तयेत्' इति ध्यान. । b) ज्ञानसं पर. पाथा. उत्सं. । c) 'लिप्यति' इति पा. इ यनि. शोषः द्र. । d) विली^१
 इति अञ्जा. । e) ब्राम. द्र. । =प्रलय-, योगविशेष- प्रभृ. । f) 'लयिष्यति' इति अञ्जा. संटि. । g) =लेलीयमान- ।
 h) वस.>पस.>वृष. । i) अर्थः व्यु. च इ =विप. । j) व्यु. इ

लीला-म(य)या- न्याः सार
२५८:२.
√लीलाय्, लीलायताम् गु ५०.
लीला-योग्य- न्याः सार २४२:
१३.
लीला-योग्यता- ता सार २५५:
२२.
लीला-रति- -तिः सार २५६:१९;
-तिम् सार २५९:६.
लीला-लोक- -कम् सार २५१:५.
लीला(ला-अ)वलीक- -कः सार
२३३:२.
लीला-विद्या- -द्याम् सार २४६:
१०.
लीला-समेत- -तौ सार २६०:
१३.
लीला-स्थान- -नम् सार २२६:१७;
२८५:१८.
लीलो(ला-उ)पयोग्य, ग्या- -न्यः
सार २८८:१९; न्या सार २४४:
२; न्याः २४१:१८.
लीलो(ला-उ)पसेवा- -वा सार
२४९:१८.
√लुह्, लुह्ल महा ३,२८; कुं २४.
√लुप्, >लोपि, लोलुप्, लोपयन्ति
वपं ३१३:६.
लोलुपन्ते मैत्रि ७, ९; अलोलु-
पन्त क १,२,४.
लुस-
लुस-पिण्डो(एड-उ)वृक-क्रि-
(य)य- न्याः गी १,४२.
लुस-सर्व-क्रिया(>)य- न्यः
वृजा ५,८.
लुप्यमान- -नः मैत्रि ३, २; ६,
३०.
लोपन- -नात् काम १२.

लोलुप- -पः इ १४:११.
लोलुप्यमान- -नः मै ३,२.
√लुम्
लुन्ध- -न्धः गी १८,२७.
लोम- -मः मै ३,५; मैत्रि ३,५; ते
६,१३; सार २९२:५; भव ४,
११; गी १४,१२; १७; १६,२१;
-भम् ते १,१२.
लोम-क्रोध-मोह-पूर्वक- -काः
योक् २,३४.
लोम-क्रोधा(प-आ)दि- -दयः
कृ २.
लोम-जाल- -लम् मैत्रि ६,
३८.
लोम-मोह- -हौ नाप ४,५; वरा
१,१०; भव २,२२.
लोममोह-विनिर्मुक्त- -कः
पित्र ६,२०.
लोममोहा(ह-आ)दि- -दयः
नाप ३,३३.
लोम-मोहित- -तः इ १३:१५.
लोमा(म-आ)दि- -दयः गर्भ ५.
लोनादि-दोषो(प-उ)-
जिहत- -तः रा २,३८.
लोमो(म-उ)पहत-चेतस्-
-तसः गी १,३८.
√लुल्
लोल, ला- -लम् महा ५, १४६;
-लया १संन्या २,१६.
लौल्य- -ल्यम् नाप ३,७१.
लोल-कुण्डल-धारिन्- -रिणे
गोप् ३९.
लोल-ता- -ताम् महा ५, १२०.
लोल-सत्ता- -त्तया १संन्या २,
१६.
√लृ, ल्य-ल्य ली २१५:२०.

लृ राप् ४,५००.
लृत्^०- -तैः १योत ३३१^०.
लृता^०- -तानाम् गर २३; २४.
लृ(तक)तिका^०- -का त्रिमा २,
६१.
लृं त्रिवि ७, ३६^०; य ४३५:७.
लृं त्रिवि ७, ३६^०; य ४३५:७.
लेला^०-
√लेलाय्, लेलायते सुं १,२,३; थे
३,१८; लेलायति वृ ४,३,७.
लेलाय(त)न्ती- -न्तीः वापें
८:२१.
लेलायमान(>)ना^०- -ना सुं
१, २, ४.
लेलिहान- √लिह् द.
लेय- √लिश् द.
लेङ्ग- लैत्रिक- √लिश् द.
√लोक^०(वया).
लोक^०- -कः क १, २, ६; तै १, ५,
१^०; ऐ ५, ३; छां १, ८, ५, ७, ९,
४^०; १३, १; २, २४, २; ५, ३, ३;
४, १; १०, ८; ७, ३; ४, २; ८,
१; ८, १, ६^०; वृ १, ४, १६^०; ५,
४^०; १७^०; ३, ३, २, ७, १^०; २^०; ९,
१०-१७; ४, १, २^०; ३, २०; ४,
१३^०; २२; ५, १^०; ६, २; ९;
११; ४, १^०; गी ४, ९५; मैत्रि ६,
२४; ७, ८; मवा २, १४^०; ४;
७९^०; कौ १, ७; ३, १; ते ५,
४३; ६, १५; ३७; नाद ४; आयो
१; महा ३, ४; ४, १३; ५, ८६;
योशि ४, १०; १संन्या २, ५९;
मया ४; गरा ३, १४; ४, २६;
पाषा २१; २४; शता ३, ७; ९;
सार २२० १; २११; २२१:१०;
१४; २४५:९; २११; २४६:५;

a) =बीजमन्त्रविशेष-। b) 'लृ' इति आन., 'लृ' इति षण्णा.। c) द्यु.इ। d) 'लृ' इति षण्णा. इति षण्णा. यनि. मोधः द्र. (तु. निसा.)। e) 'लृ' इति निसा.। f) 'लृ' इति निसा.। g) द्यु.इ =गति-प्रकर्ष- (द्र. शं. नाउ.)। h) तु. यद्. वृ २२९. g। i) वैप १ यद्र.। j) सट्टव 'काः इति निसा.।। k) तैष्वा १०, १३, १^०। l) तैष्वा १०, ६३, १।

२५२:२०; २५४:२०; २५६:
 ४; २५७:८-१०; २६५: ११;
 २७९:१८; २८७: १८; २८९:
 १९; शि ७, १०४; गार ४०५:
 १४; अह २१९; भव १, २५;
 सांका ५८: गी ३, ९; २१; ४,
 २१; ४०; ७, २५; १०; ६; १२,
 १५; -कम् प्र १, ९; ३, ७; १०;
 ५, १; सुं १, २, १०; ३, १, १०;
 तै २, ६, १; छां १, ८, ५; ७;
 २, २२, २; २४, ५; ९; १४; ३,
 १३, ६; ७, ३, १; ७, १; १४, १; ८,
 ३, ३; ५; ८, ५; वृ १, ४, १५, ५,
 १३; ३, १, ६; २, १२; ७, १; ४,
 ३, ७; ४, ८; २२; ५, ३, १; १०, १;
 ११, १; ६, २, २; गौ २, ३६; मै
 १, ५; मैत्रि १, ४; ६, ३, ५; आह
 १; अशि १, १; कौ २, ९; सुभा
 ४; ११; १५; ते ५, ७; मं ५,
 १, ७; शां २, १; अलि ३१; वरा
 ४, १२; २संन्या १६; ३; वा
 १७; च २१: १५; निरु २, ९;
 वृष ८४: १; पा ६, १; सार
 २३३:६; २३५: १४; २५६:
 १२; २८५: १६; शि ६, ११३;
 हे १; म २, ६५; गी ९, ३३;
 १३, ३३; -कयो: मना २, ५०; १०;
 अव्य ६; -कस्य छां १, ८, ५; ७;
 १, १; ३, १३, ६; ७, ४, २; वृ ४,
 ३, ९; श्वे ३, १८; जा २; मना
 २, ७९; कौ १, २; पदं १;
 १योत ७७; त्रिवि ७, ५; गोच
 ६७: १; पा ३, ९; सार २५६:
 १४; २५८: ११; १७; २६०: १५;
 २७६: ९; २८२: १; सु २९३:
 १५५; शि ६, १२५: ७, १११;

मु ५०; सां द, ५७; गी ५, १४;
 ११, ४३; -का: ई ३; क१, १, ३;
 २, २, ८; ३, १; प्र ६, ४; सुं १, १,
 ८; २, १, ६; ८; २, २; तै १, ५, २;
 ऐ १, ३; ३, १; ४, ३; छां १, ६, ८;
 ७, ६-८; २, २, ३; २, १, १; ८, १२,
 ६; वृ १, २, ७; ५, ४; १६; १७;
 २, १, १८; २०; ४, ५; ६; ५,
 १५; ३, ९, ८; २६; ४, ३, २२; ४,
 ११; ५, ६; ७; श्वे ४, १३;
 गौ २, २१; मैत्रि ६, ३२; अशि
 ६, १६; मना २, १२, १९; कौ
 ३, ३; ४, १९; म २; वृष २, ४;
 १४; ते ५, ८; १; ६, १९; त्रिवि ३;
 १योत १३४; २योत १, ६; योच
 ७२; ७४: ८५; अता १२; त्रिवि ८,
 ४; महा ६, ७९; योशि ६, ५६; ५७;
 अज्ञ १, ३३; त्रिता १, ११; ५, १;
 यो ३, २२; गोच १७; १८; ३४; या
 २, २३; वरा २, ४७; १प्र ३१: ३;
 गोच ६६: १५; वृष ८५: १०;
 सार २१९: ६; वृ ३१७: २२;
 शि २, ६; गार ४०५: ९; मु १४;
 १६; भव १, ५५; ५८; त्रिवि १,
 ९; १; वृष ३; १; वल ४,
 २३; गी ३, २४; ८, १६; ११,
 २३, २९; -कात् के १, २; २, ५;
 तै २, ८, ५; ३, १०, ५; ऐ ५, ४;
 वृ १, ४, १५; ५, १७; २, १, ५; ३,
 ८, १०; ४, ४, ६; ५, १०, १; ६,
 ४, ४; १२; मै १, ५; मैत्रि १, ४,
 मना २, ७८; कौ १, २; २,
 १४; आवो १; कुं ७; वरा
 ४, २६; शा २६; इ १२: १०;
 अह ३३; गी १२, १५; -कात्
 सुं १, २, ३; १२; तै ३, १०, ५; ऐ

१, १; छां १, ९, २; २, ७, २; १७,
 २; २३, २; ४, ५, ३; ६-८, ४;
 १४, ३; १७, १; ७, ४, ३; ५, ३; ७,
 २, ९, २; ११, २; १२, ३; ८, ७,
 १-३; १२, ६; वृ २, ४, ६; ४, ५,
 ७; ५, १; १४, ६; ६, २, १६;
 श्वे ३, १; २; गौ २, २७; मै ५,
 ७; मैत्रि ६, ७; २६; आह २; मना
 १, ४; १०; १४; अशि
 ४, ४; ५, ३; अ २; कौ २, १५;
 वृजा ८, ४; वृष १, ६; २, ८-१२;
 सुभा १०; नि १५; ते ५, ८७;
 ८८; १योत १३४; २योत १, ५;
 नाप ४, १; श २४; अव्य ३; ४;
 ५; ७; त्रिता १, ५६; ३, २०; ४,
 ९; १०; २प्र ३२: २; ६; गोव
 ६२: १२; पा ३, २; ३; वृ ३१५:
 २०; ३१७: २; गार ४०५: २१;
 गा १९; भव १, २४; १कौल ७:
 १; वल ३, ५१; ५९; गी ६, ४१;
 १०, १६; ११, ३०; ३२; १४,
 १४; १८, १७; ७१; -कानाम् ऐ
 ४, ३; छां ४, १७, ८; ८, ४, १;
 वृ १, ५, १६; २, ४, ५; ३, ३, १;
 ४, ४, २२; ५, ६; म २, ५; पा
 १, १; ४, ३; ८, २; सार २३०:
 १५; २५८: १२; -काय वृ १,
 ४, १६; ४, ४, ६; -के के ४, ९; क
 १, १, १२; ३, १; सुं १, २, १; ऐ
 ४, ६; ५, ४; छां १, ९, ३, ४;
 २, २, ४, ५; १५; ३, १४, १; ४,
 ५, ३; ६-८, ४; ११-१३, २; ५, १,
 ३; वृ १, ५, १७; २, १, १०;
 १२; ३, ८, १०; श्वे ३, १६; ६,
 १; ९; गौ ४, ९५; मैत्रि ४, ६;
 ६, १६; मना २, २९; ७९;

a) शौ १०, २, ३१ । b) के इति क्वाचित्कः निसा. पा. । c) तैत्रा १, २, १, १५ । d) तैत्रा १०, ६३, १ ।
 e) तैत्रा ३, १२, ३, ४ । f) मा ४०, ३ । g) तैत्रा १०, १०, १ । h) 'कालो' इति शब्दा. । i) तैत्रा १०, ६२, १ ।
 j) 'शरीरात्' इति शांशा ४, १४ । k) 'कवत्' इति निसा. यनि. शोधः द. (दृ. अज्या.) । l) तैत्रा १, २७, ५ ।
 m) मा ३२, १; १२ । n) तैत्रा १०, १, १० । o) तैत्रा १०, १, १४ । p) तैत्रा १०, १, १६ । q) तैत्रा १०, ६३, १ ।

कौ १, ३; ३, २; पद १; अ ३, १;
 ब्रजा ७, ८; तै ५, ४; ६, ५; त्रिवि
 २६; ३६; आबो १; १; नाप ३,
 ४, १; ६, ३; त्रिवि ७, ५; १;
 महा ६, ६६-६९; योशि १, ५८;
 १५१; तुअ ३; पप ४२० : ९;
 अल ४, ४; पत्र ३, ५; १अव
 ३०; रुजा ३, १; यो २, १; पं१;
 वरा ४, ३४; ३५; शा ३०; इ
 १९; ११; सूता ६, ११; गोच.
 ६८ : २२; पा १०, ८; सार
 २२० : १६; २२१ : ११; २३;
 २२७ : ४; २४१ : १३; २५२ :
 २०; २७७ : २३; २७८ : ३; ४;
 २८३ : १०; सु २९३ : १६; वि
 ७; १९; २१; शि ६, २; ३०;
 ४७; ५५; ९७; १०१; १०३;
 १५५; १९६; १९९; २४०; सिशि
 ३८३ : ५; गार ४०६ : २१; यु
 ६८; व ४६१ : ११; १कौल
 ६ : २; २कौल ७१; अ १,
 १३; ४५; २, ४४; ४, ३; १७; अ
 २, १, २५; ३, १, १९; गौ २, ५; ३,
 ३; ४, १२; ६, २; १३, १३; १५,
 १६; १८; १६, ६; केन तै १, ३, ४;
 केम्यः छां ३, १४, ३; कौ ३, ९;
 ह९; गार ४०५ : १०; केपु क २,
 ३, ४; अ ६, ४; छां २, २, १; ३;
 १७, १; २; ३, १३, ७; ४, १५, ४;
 ५, ३, ७; १८, १; २४, २; ७, २५,
 २; ८, १, ६; ३, ३, ५, ४; ४ १,
 ३, १; ५, १४, १; मैत्रि ४, ६;
 १शोत ५१; रापू १, २; शां १,
 ७, १४; योशि १, ४३; १४९;
 ५, ५६; ६०; गोउ ६३; गा २;
 गी ३, २२; केः ४ १, ३, २२;
 कौ छां ८, ६, ३; ८, ४; ४ ४, ३,

७; मना २, ५०; लौकिक-कः तै ६, १५; महा
 ५, ९२; १अव २२; कम् गौ ४,
 ८७; मैत्रे २, ८; तै ५, ३८;
 कानाम् ससा १, ४१; के पत्र ३, ८.
 लौकिकी-क्री नाप
 ६, २४; महा ५, १५.
 लौकिक-वैदिक-कम्
 तुअ १०.
 लौकिकवैदिक-साम-
 ध्यं-ध्यम् पप ४२८ : १८.
 लौकिका(क-अ)मि-
 शीन् आद २.
 लौकिके(क-ई)श्वर-
 लौकिकेश्वर-वत् सांस्
 ५, ४.
 लोक-कौतूहल-लम् शि ७, ५९.
 लोक-क्षय-कृत्-कृत् गी ११,
 ३२.
 लोक-क्षित-क्षिते छां २, २४,
 ५; ९; क्षिन्नयः छां २, २४, १४.
 लोक-जित-जित् ४ १, २, २८.
 लोक-ज-जः शा ३०.
 लोक-तत्(ः) शि ६, २२९.
 लोक-ता-ता अल ४, २१;
 -ताम् सार २२२ : १.
 लोक-त्रय-त्रयम् अ २, ४१;
 गी ११, २०; १५, १७; ये जाद
 १, २४; गी ११, ४३.
 लोकप्रय-विहीन-
 लोकप्रयविहीन-स्व-
 स्वान् तै ५, १८.
 लोक-दर्शना(न-आ)काङ्क्षा-
 क्ष्मा सार २३२ : २३.
 लोक-दुःख-खेन क २, २, ११.
 लोक-द्रा-त्रम् छां २, २४, ४;
 ८; १२; १३; ८, ६, ५.

लौकिक-धारि(न्)णी-णी
 मना १, ८; य ६; सु २९३ : ६.
 लोक-पाल-लः कौ ३, ९; मना
 २, १५; लः-लः ऐ ३, १; वृषू
 ४, १५, १६; राउ ४, ३१; अद्वैता
 १६; लान् ऐ १, ३; लः रापू
 ५, ६.
 लोकपाल-मन्त्र-न्त्राः
 त्रिवि ७, ४७.
 लोकपाल-संवादि(न्)णी-
 नी-नी गुणो ४२० : ११.
 लोक-पालक-काः तै ६, १९.
 लोक-वितामह-हः सार
 २४३ : ६.
 लोक-महा-लीला-लायाः
 सार २५७ : १०.
 लोक-महेश्वर-त्रम् गी १०, ३.
 लोक-गुण(ः)णी-णी वा
 १५.
 लोक-रक्षण(ः)शी-शी
 सी १६.
 लोक-वत् सांस् २, ४०; ४६;
 ४७; ४, १५; ५, ३; ६, ४३; अ
 २, १, १३; ३३; ३, ७; २५; ३,
 ३, ३०.
 लोक-व(ः)ती-ती गौ ५,
 ५; ६; मैत्रि ६, ५; ६.
 लोक-वर्ता-वर्तायाः अथा ५.
 लोक-वातना-नया सु २, २, २;
 -नाम् नाप ५, १; १संन्या २,
 ११.
 लोक-विद्-वित् वृ ३, ७, १;
 -विदः गी २, २१; २७.
 लोक-व्युत्पन्न-व्युत्पत् सांस् ५,
 ४०.
 लोक-व्यग्रह-हम् गी ३, २०;
 २५.

a) 'कश्चित्' इति अख्या. । b) अ २, ११३, ७ । c) तैमा ३, १२, ३, ४ । d) तैमा १०, १, १६ । e) सञ्ज
 °कान् इत्येवं शोधः द. (तु. १कौल ७:१) । f) तैमा १, २, १, १५ । g) °कश्चिद् इति अख्या. । h) लोक° इति अख्या. ।
 i) उप. < ✓वि(निवासे) । j) तैमा १०, १, ८ । k) तैमा १०, १४, १ । l) वैश १ यद. । m) = २१ । n) °केपु° इत्यपि पाठे. ।

लोकसंग्रह-युक्त- -कानि
नाप ५, २१.
लोक-रस्यत्- -स्मृते मैत्रि ६,
३५१.
लोक-हन्तृ- -न्तारम् श ४.
लोका(क-आ)चार- -रम् नाप ६,
३५.
लोका(क-अ)ण्ड- -ण्डम् मवा
३१.
लोका(क-आ)दि- -दिम् क १,
१, १५.
लोका(क-अ)धिपति- -ति: कौ
३, ९.
लोका(क-अ)धिष्ठित- -त: वपू
३, १.
लोका(क-अ)ध्यक्ष- -क्ष: सुसु
२०.
लोका(क-अ)नुग्रह- -हाय सूता
१, ४.
लोकानुग्रह-काम्या- -म्यया
१अव २३
लोकानुग्रहा(ह-अ)र्थ- -थम्
गोच ६७: १६.
लोका(क-अ)नुवर्तन- -नम्
अक्षि ४२; अध्या ३.
लोका(क-अ)न्तर- -रम् पै २,
४९.
लोकान्तर-गत- -त: पै २,
३८.
लोकान्तरा(रा-आ)दि-
लोकान्तरादि-क- -कम्
सु १, १, १९.
लोका(क-अ)न्त-र(य>)या-
-या अक्ष १५.^०

लोका(क-आ)पति- -ति: द्रम्
३, ३, ५१.
लोका(क-आ)यत^१-
लोकायता(त-आ)दि-
सांख्या(ख-अ)न्त- -न्ता: महा
४, ७४; वरा २, ५५.
लोकायतिक- -का: सूता १,
३९.
लोका(क-अ)लोक- -कम् सुवा
१५.
लोकित्- -किन: सुं २, २, २; की
छां २, १७, २; ४, ११-१३, २.
लोकै(क-ई)श- -शै: सौ १, २.
लोकै(क-ए)क-दीपा(प-अ)-
हू(र>)रा- -राम् व ४५५:
१८.
लोकै(क-ए)पणा- -णा वृ ३, ५,
१; ४, ४, २२; -णाया: वृ ३, ५,
१; ४, ४, २२; वृड ६, ४; नाप
४, ३८^१.
लोको(क-उ)त्तर- -रम् गौ ४,
८८.
लोक्य- -क्यम् वृ १, ५, १७.

√लोक>
लोचन- -ने सार २२८: २१
लोचन-प्रि(य>)या- -या: महा
३, ४३; या २, ९.
लौदंकेचनंकांचानु^० कृपु १७.
लोपन- √लुप् द.
श्लो(प>)पा^१- -पा काम १३.
श्लो(प>)पा^२-
लोपा-मुदा^१- -द्रा त्रिता १, ५८;
-द्राया: त्रिता १, ७४.
लोम- √लुम् द.

लोम^१- -मै: आच ५.
लोमन्^१- -म छां २, १९, १; कौ ३, १;
-मभ्य: ऐ १, ४; छां ८, ८, १; कौ
४, १९; सुवा २; -मानि ऐ १-२,
४; छां ५, १८, २; वृ १, १, १;
३, २, १३; ९, २८, १; ६, २, १३;
४, ३; मना २, ८०^१; गु १७;
पिम १, १०.
लोमा(म-अ)धरोष्ट^१- -ष्टम् आच ७.
लोम-(श>)शा^१- -शाम् तै १, ४,
२; व ४६६: १२.
लोल- √लुल् द.
लोलुप-, लोलुप्यमान- √लुप् द.
लोष्ट^१- -ष्ट: वृ १, ३, ७; -ष्टम् जाद १,
२२^१; शि ७, ५२.
लोष्ट-काष्ट- -ष्टै: शि ७, ५४.
लोष्ट-वत् अक्ष १, ३८^१.
श्लोह^१- -हम् छां ४, १७, ७५^१; ६,
१, ५; शि ६, २६९; -हानाम्
१५: ५; -हे शि ७, ४९; -हेन छां
४, १७, ७५^१.
श्लोह-कार^१- -रस्य योशि १, ९६;
यो १, ३४.
श्लोह-(ज>)जा- -जाम् यो २, ४४.
श्लोह-ता- -ता योशि ४, २४.
श्लोह-मणि- -मिना छां ६, १, ५; पं
३०.
श्लोह-मय- -यम् छां ६, १, ५; पं ३०.
श्लोह-वत् सांस् १, १९^१.
श्लोहा(ह-आ)दि- -दे: १ योत ७४.
श्लोहा(ह-आ)द्य, घा- -द्यम् शि ६,
२३५; -घाम् शि ६, २३४.
श्लोहो(ह-उ)पकरण- -णम् शि ६,
२४१; -णे शि ६, २४२.

a) °ण्ड: इति निसा., अश्या. °न्ध: इति निसा. संटि. च यनि. शोध: द्र. (तु. अश्या. संटि, गपू. १०६१) ।
b) °रं ग° इति अश्या. । c) तु. गपू. ५३९, ७e । d) °के° इति निसा. यनि. शोध: द्र. (तु. अश्या.) । e) पा! ।
f) व्यु: ? = देवी- ? । g) व्यु अर्थश्च ? । h) = अगस्त्यपत्नी- । प्रकृते तक्षान्ना विद्याविशेष उपचरित: द्र. । i) = नाउ. !
j) वैप १ यद. । k) तैआ १०, ६४, १ । l) समाहोर द्रस. । m) पा ५, २, १०० । n) °ष्टम् इति निसा. यनि. शोध:
द्र. (तु. अश्या.) । o) °ष्ट° इति निसा. यनि. शोध: द्र. (तु. अश्या.) । p) = अयस्- । वैप १ यद. । q) जैड ३, ४,
३, २ । r) वैतु. साध. पूष. = अयस्कान्त- इति ।

रलोह^६-

लोह-वन- -नम् गोड २१; सार
२२१: १२; -ने सार २६०: ६.

१लोहित^७-

रलोहित^७- -त: छां ८, ६, १; ध्या
८६; योच् ६०; -तम् वृ ४, ४,
९; सुबा ४; ११; गु ११; -तस्य
छां ८, १, १; वृ ४, २, २०; कौ ४,
१९; मैत्रि ७, ११; सुबा ४.

लोहिनी^८- -न्य: वृ २, २, २;
४, २, ३.

लोहित-विण्ड- -ण्ड: वृ ४, २, ३.

लोहित-शुक्ल-कृ(ष्)णा-
-ष्णा शां ३, १; -ष्णाम् श्वे ४, ५;

मनार, १२, ११०; नाप् ५, २०१०.

लोहिता(त-अ)क्ष- -क्ष वपं
३१२: १५; -क्ष: वृ ६, ४, १६;
श्वे ४, ४.

लोहिता(त-आख्या)ष्य-

-ष्यम् ध्या ८७; योच् ६०.

लोहितो(त-उ)च्छिष्ट- -ष्ट: वृ ११.

लोहित-शुक्ल-कृष्ण-गुण-

लोहितशुक्लकृष्णगुण-म(य) >

यी- -यी वै १, ४.

३लोहित^९- -तम् छां ६, ५, २; वृ ३,
२, १३.

४लोहित^{१०}-

लोहित- -तम् गार ४०७: ११.

लौकिक- √लोह् द.

लौक्य- √लुक् द.

व

*वृ पुम्बद्- द.

१व^१

१व-कार- -रम् ध्या ९६; -रेण
१योत ८९.

वं^२ त्रिवि ७, ४८; लां २१६: १९१४;

आथ ३९६: २; व ४३६: ६;

हंपो १२; वं-वं लां २१६: १९;

व ४३६: २३.

वं-कार- -०र अच् ५.

वं-बीज- -जम् १योत ८८.

२व^३

२व-कार- -र: सिशि ३८२: १३.

३व^४

३व-कार-

वकार-मात्रा- -त्रया २प्र३३: २.

१वंश^५- -श: कृ ८: ११; -शो योशि १,

११३; -शै: शि ४, ६२; ६, १४५.

वंश-काष्टीक-वीरण- -वी: शि ७, ५६.

वंश-ज- -जम् शि ६, २७१; -जानाम्

शि ६, २६४.

वंशजा(ज-अ)र्ध-सम- -मम् शि

६, २६५.

वंश-ताला(ल-आ)दि-संमूत-

-तम् शि ६, ६०.

वंश-मङ्गल-का(ष्)का- > ष्टिका-

-काम् शि ७, ५२.

वंश-मण्डलि- -लिना शि ६, १४६.

वंश(श-अ)लातु-समुत्थ- -त्थानि

शि ६, ५८.

२वंश^६- -शा: वृ २, ६, १; ४, ६, १; ६, ५,

१; -शाम् वृ ३, ६; -शो सं ११.

वंश्य- -श्यन् अव्य ७.

३वंश^७(श) > शी^८-

वंशी-वट- -ट: सार २५५: ४.

वंशीवट-संकेतवट- -टौ सार

२२१: १६.

√वक्

वक्^९-

वक्-गुण्ड- -ण्डम् वपू १, ५;

-गडाप मना १, ५१०; ग १०१०;

व ४६२: २३१०; वपू १, ६; ७;

वउ २, ८१०.

वक्गुण्ड-स्वरूप-

वक्गुण्डस्वरूपिन्-

-पिणम् वपू २, २.

वक्गुण्डा(एड-आ)द्य-

(दि-अ)ष्ट-विनायक- -का: वपू

२, ४.

वक्त्- , वक्त्र- √वक् द.

वक्त्स्- -क्ष: पा ९, २; -क्षस: यो १,

१५; १६; -क्षसि ध्या ६९; योच्

४०; ११४; ऊ ६४: ७; सिशि

३८१: १३; -क्ष: सु वृजा ४, २४.

वक्षो-ज- -जौ सार २४४: २३.

वक्षो-भ्यस्त-हनु- -नु: ध्या ९३;

योच् ६६.

वक्ष्यमाण- √वक् द.

विद्क्ष(ण) > षा^{१०}- -ष्णा: वा १०.

√वक् > वाचि, विवक्ष्, वक्ति नाप ३,

६३; शि ७, ४; वक्ति त्रिता २,

४८; क०४२: ग३; ४; वरा १, ९.

उवाच के ३, १२; ४, १; क० १, १,

४१०; १५; प्र १, २; ४; २, २; ३;

३-४, २; ५, १; ६, २; ७; सुं १,

१, २; ४; ३, २, ११; तै ३, १-५,

१; ऐ ४, ५; छां १, ५, २; ४; ८, २;

३; ४, ५; ६; ४; ८; ९, १; ३;

a) स्यु. १ = लोप्रवृत्तविशेष- । b) = वर्णविशेष- । वैप१ यद्. । c) = वर्णविशेषवत्- । d) पा ४, १, २९ ।
e) तैशा १०, १०, १ । f) *कृष्णा गुं इति श्रम्या । g) = ह्यपरि- । h) वृ. १ = श्रष्टिविशेष- । i) = वर्षी- वा
बीजमन्त्रविशेष- वा । j) = बीजमन्त्रविशेष- । k) 'व' इति पा १ यति. शोष: द. । l) तु. गार. वृ २३३८ ।
m) 'शिष- > -याच' इत्यत्रयो मध्यमो वर्षी: । n) प्रणव- इत्यस्याऽऽन्तिमोऽवयवः । o) स्यु. १ = वैपु- । वैप१ यद्. ।
p) उप. स्यु. १ पुं. = एए- ? । q) स्यु. १ = कुल- । r) स्यु. १ = वाचविशेष- । s) जी. रीप् प्र. दसं (पा ४, १, ५१) ।
t) वैप१ यद्. । u) तैशा १०, १, ५ । v) *क्षः इति त्रिता. संटि., अष्ट्या. । w) तु. वैप१ वक्ष(ण) > षा- (= अत्र ये.);
वैतु. पाटी. 'प्रयङ्गुण- > -णान्' इति पा. (वैतु. श्र १, २२, १) । x) 'उच्यते' इति श्रम्या. संटि. । y) तैशा ३, १३, ८, १ ।

१०,२; ३^१; ४; ६-८; १०; ११;
 ११,१^१; २; ३; ५; ७; ९; १२, ३;
 ३, ११, ४; १७, ६; ४, १, ५; ७; २,
 ५^१; ३, ६; ४, १; ३; ४^१; ५^१; ५, २;
 ६-९, ३; १०, २; ३^१; ५; १४, ३;
 १५, १; ५, १, ७-११; १३^१; १४^१;
 २, १-३; ३, १; ४; ५; ६^१; ७^१; ११,
 ४; ५; ७; १२, १; २; १३, १^१; २;
 १४-१६, १^१; २; १७-१८, १^१;
 ६, १, १, २; ७, २, २; ५, ४, ६, ५;
 ७, ७; ३; ५; ८, १; ७; ९, ४; १०,
 ३; ११-१२, ३^१; १३, १-३;
 १४-१५, ३; ७, १, १^१; ३; २४, २;
 ८, ३, ४; ७, १; ३; ४^१; ८, १; २^१;
 ३; ४; ९, २^१; ३^१; १०, १; ३^१; ४^१;
 ११, १; २^१; ३^१; १२, ६^१; १५, १;
 वृ १, ३, २४; २, १, १^१-१४^१;
 १५-१७; ४, १; २^१; ३-५; १२;
 १३^१; ५, १६^१; १७-१९; ३, १,
 २^१; ३-१०; २, १; १०; ११^१; १२;
 १३; ३, १; २^१; ४, १; २; ५, १; ६,
 १^१; ७, १; २; ८, १-८; १२; ९, १^१;
 २; १०-१९; २१, २३; २५; २७;
 ४, १, १^१; २^१-७^१; २, १^१; ४; ३, २;
 ३३; ४, ७; २३; ५, २; ३^१; ४; ५;
 ५, २, १^१-३^१; १२, १; १४, ८^१; ६,
 १, ७-१२; १४; २, १; २^१; ३-८;
 ३, ७-१२; मै १, १; मैत्रि १, २^१;
 मना २, ८^१; अ १^१; कौ १, १^१;
 कचतुः छां ८, ७, ३; ८, १; ३; वृ
 ३, २, १, ३^१; ऊचिरे गोउ १; ऊचुः
 छां १, ८, १; १२, २; ६, १०, ४;
 ५^१; १४, १; ५, १, ७; १२, २, १;
 २; ११, ६; ८, ७, २; वृ १, ३,
 १-७; ८^१; ५, २, १^१; २, ३;
 ६, १, ७-१३; मै २, ४; मैत्रि
 २, ४; जा ३; वृउ ९, १५; नाप
 १; शव्य ६; त्रिता २, ३; रुजा

३, १; वक्षयति प्र १, १; वृ २,
 १, १५; ३, ८, १; पित्र १, २;
 वक्ष्ये १योत २१; योचू १; योशि
 १, ६९^१; वो १, ३; जाद ६, १;
 सूता ४, १; पित्र १, ७; अद्वैमा
 १; वक्षयामि छां ४, १४, ३; ७,
 १, १; वृ ४, २, १; ६, २, ८; गौ
 ३, २; भ्रवि २; १योत ४; योशि
 ६, २; अक्षि १; जाद १, ४; सु
 १, १, ८; वि ६; वक्ष्यामः प्र १,
 २; १^१वोचम मना २, २५;
 २शिरसं ३१; अवोचत् तै १, ७,
 १; छां १, ११, ४; ६; ८; वृ २,
 ५, १६-१९; सौ १, १; द्यागदृष्टः
 ८; वृषदृष्टः २; पाद, ५; अवोचन्
 छां ४, १४, २, ३; अवोचथाः छां ५,
 ३, ४; वोचत वृ ३, ९, २८, ५;
 अवोचम् छां ३, १५, ४; ५^१; ६^१;
 ७^१; वृ ६, २, ४; अवक्षयन् छां ६, १,
 ७; अवक्षयम् प्र ६, १; छां ५, ३, ५.
 उच्यते क २, २, ८; ३, १; सु २,
 २, ४; तै २, २-३, १^१; ७, १;
 गौ ३, १, ८; मै २, ६; मैत्रि २, ६;
 मैत्रे २, ९; हं ९; गर्भ १; अना
 ५; उच्यन्ते वृ ३, ९, १; मै ३,
 २^१; मैत्रि ३, २^१; महा २, ४०;
 दत्ता १, ७; उच्यताम् गोच ६; ७;
 ११; उच्येत योशि ३, १६.
 वाचयीत शि ७, ७, ८.
 उक्त, का-क-कः तै १, २, १; छां ४,
 १, ४; ६; ध्या २१; भ्रवि १४;
 नाप १; ५, १^१; रार २, ५, २; सुद्र
 २; महा २, २०; ६, ५, ७; अन्न १,
 ११; २, १; अक्षि १०; पाशु २,
 ६; यो २, १५; जाद ७, ९; प्रा
 २, १; दत्ता १, १; सर ३, १७;
 भव ३, १३; गी १, २, ४; ८, २, १;
 १३, २, २; -कम् ए ४, ४; छां ६,

८, ६; मै २, ८; ३, २^१; ३-५; ४,
 २; ३; ५, ४; ५; मैत्रि २, ६; ३, २^१;
 ३-५; ४, १; २; ५; ६, ४; ५; १२;
 १४; १९-२८; ७, १०^१; मैत्रे २,
 १५; वृजा १, १; ३, १; वृष ३,
 ४; ६; काता १०; सुभा १३;
 क्षु २; वसू ३; ते ५, ५६; भ्रवि
 २; २७; ३२; ५७; त्रिता २,
 ५२; मं २-३, १, १; त्रिवि १,
 ५; २, १^१; १०; ४, ३; ८, २;
 रार २, ५०; रावृ ४, ६५; रावृ
 ४, १; महा ५, १३१; १५३;
 योशि ५, २१; ६, ७८; १संन्या
 १, १; अन्न १, ११; पत्र ३, ३;
 त्रिता १, ३०; यो ३, १०; १६;
 जाद १, १२; ३, १२; ४, २; ५;
 ४२; ४६; ६, ३२; जावा १८;
 १प्र ३१; १; २प्र ३३; १४;
 गोच ६९; ५; सार २, ५७; ६;
 २९०; २३; शि ४, ३२; २७;
 ५, १५; त्रिशि ३८१; १४; वपू
 २, २; भव १, ३२; कथु १, १;
 योवृ ३, २२; ४, २७; भ्रवृ १, ३;
 २१; २, १, ३१; ३, ३, ८; ३६;
 ३३; ४३; ५०; ४; ४२; गी ११;
 १; ४१; १२, २०; १३, १८; १५,
 २०; -क्ता के ४, ७; वृजा ६,
 १२; महा ५, २३; अन्न ५, ८१;
 ८७; अक्षि ४१; यो २, ८; सार
 २८५; २३; २८६; १४; -क्ताः
 मैत्रि ५, २; रार १, ७^१; जावा
 १०; सु १, २, ७; इ १८; २;
 सार २४१; १२; २४२; १८;
 त्रिशि ३८२; २; ५; गो २, १८;
 -क्तानि शु २, ५; सार २६०१;
 शि ६, १२६; -क्ते मैत्रि ७, ८;
 वरा २, ७१; ७२; राधा १, १५;
 -क्तेन मै ५, ५१^१; मैत्रि ६, ५;

a) वृ. गण्ट ५५२५८। b) 'वप्रच्छ' इति ध्यान.। c) 'प्रवक्ष्यामि' इति ध्यान.। d) अ १, ४३, १।
 e) °कम् इति श्रद्धा.। f) °का इति निरा. यनि. शोधः द. (वृ. नाउ.)।

योशि १, ५८; गोउ ३६; सूता
१, ४३; ६, १२; गोच ६८: २१;
सार २३१: २१; २७३: १०;
-कै: सार २३१: १७.
उक्त-कम- -मात् रापु ४, ६४.
उक्त-ब्रह्मा(ह्र-आ)नन्द-स्मृ-
ति- -तिम् मं २, ४, ४.
उक्त-महिमच्- -मा पित्र ६, ३.
उक्त-लक्षण- -ण: वसू २७; -णे
त्रिणा २, २७.
उक्त-विकल्प- -ल्पम् मं १, ४, २.
उक्त-विद्या- -द्याम् यो २, १५.
उक्ता(क-आ)चरण-गुरु- -रु:
अद्वै १२.
उक्ता(क-अ)नुशास(न<)>ना-
ना वृ ४, ५, १५.
उक्ता(क-अ)न्यतर- -रै: वउद,
३७.
उक्ता(क-अ)लाञ्छा(बु-आ)-
दि-पात्र- -त्राणाम् १ संख्या २,
८०.
उक्तो(क-उ)पनिपत्क- -क: वृ
४, २, १.
उक्ति- -क्ति: पाशु २, २०; जाद
१, ९; पं ३२; वरा २, ९.
उक्ति-वस(>) शु ३, ७.
उक्त्वा क १, ३, १६; छां १, ९, ३;
२, २४, ६; १०; १५; ३, १७, ६;
५, २, ३; वृ १, ४, १; ४, ५, १५;
६, ३, ७-१२; मैत्रि ६, २९; आरु
३; ना ४; अ १; वृजा ४, ३०;
शु ३, १६^१; आवो १; वानि
४०१: २^१°.
उक्थ^१२- -कथम् द्या १, ७, ५; वृ
१, ६, १-३; ५, १३, १^१; कौ २,
६^१; ३, ३; -कथय्य वृ ५, १३, १;

-कथेन मैत्रि ६, ३६.
उक्थ-विद्- -वित् वृ ५, १३, १.
उक्थ्य- -कथ्यम् वृ २, १७^१;
पा ७, ४; -कथ्येन वृ ५, १७;
वउ ५, १४.
उचथ^१-
उचथ्य^१-
उचथ्य-पुत्र- -त्र: सार २, ६.
उचथ्य- -थ्य: ते १, २१; नाप १;
५, १; -थ्यम् प्र ४, ८; सुधा ५;
६; ९; तै ४, २०; नाप २; त्रिवि
१, ४; २, १३; ८, ४; महा २, १६;
इ १८: ४; वि २^१; -व्या: छां २,
२२, ५^१; इ १७: १४; १८: ३;
-व्यानि शु १, ११; -व्ये सुवा
५; १ आ २७.
उचि- -कै: वृ ४, ३, २६.
उचिम् प्र ६, १; वृजा ७, ७; ८; वृउ
९, १९; ससा १, ४२; तै १, २१;
१योत ७; नाप २; ५, १; ८, १;
श २८; त्रिवि २, १^१; कजा १,
१; ३, १; सार २५६: १४; हंयो
२; गी १०, १६.
उचि- -क्ता क १, १, २२; २, ७^१; छां ४,
६-८, १; मै ५, ७; मैत्रि ६, ७; ११;
त्रिवि १, १; महा ६, ६५; शारी
३; योशि २, ५; वपु १, ४;
-क्ता(म् तै शां^१); १, १२, १^१;
ऐ कौ शां^१); ३, ८; नाद आवो
निर्वा मुद्र अक्ष सौ सर व शां^१);
विद्या शां^१); १ कौल शां^१);
-क्तु: वृ ४, ३, २६; ब्रह्म १, १,
२९.
उच्य^१- -च्यम् १योत १३७; नाप
६, १^१; पा ७, ६; सिशि ३८२:
११; -च्यणि सिशि ३८१: २४;

गी ११, २७; २८; २९; -च्यत्वि
ए ७; -च्ये म १, ६; -च्येण अना
१३; योच् ११४; शां १, ७, १४;
सौ २, ३; -च्यै: सार २६०: २०.
वचत्र-त्रय- -यै: सौ १, १.
वचत्र-दोष-प्र- -प्रम् योशि १,
१९.
वचत्र-समन्वित- -तम् दे १३.
वक्ष्यमाण- -णम् वृजा १, १^१; योशि
१, १०२.
वचन- -नम् शु ३, १५; दृढ ३;
२प्र ३४: ६; ३६: २; सार २२८:
१२; २७८: १०; गी १, २; ११,
३५; १८, ७३; -नात् मैत्रि ६,
१०; मसू ४, २, १६; -नानि अक्षि
७; सार २७०: १९; -नेषु २प्र
३५: ११.
वचन-प्रतिवचन-
वचनप्रतिवचन-मय- -या:
सार २३७: २०.
वचनप्रतिवचनो(न-उ)त्तर-
-म् सार २२५: १३.
वचन-सुख-दायि(न<)>नी^१-
नी सार २६३: ११.
वचना(न-आ)दान-गमन-वि-
सर्गा(र्ष-आ)नन्द- -न्दा: त्रिमा
१, ६; पै २, १२; शारी १; मू १७.
वचनादानगमनविसर्गा-
नन्द-पञ्चक- -कम् वरा १, १२.
वचनादानगमनविसर्गा-
नन्द- -हानो(न-उ)पादानो-
(न-उ)पेक्षा-मुद्रि- -द्वय: मा
१२^१!
वचना(न-आ)दान-विहरणो-
(ण-उ)सर्गा(र्ष-आ)नन्द- -न्दा:
सांका २८.

n) 'हृवा' इति आन. । b) पा? 'उ(क>)का' इति शोध: द. । c) 'मुक्ता' इति पा. ? यनि. शोध: द. (शु. ताम्रि.) । d) वैपै १ यद. । e) 'अथ कथम्' इति अस्या. । f) अ १, ४०, ५ । g) तैया ७, १, १^१ । h) ऐका २, ७, १^१ । i) पा. अर्थ: १ । j) 'चक्रम्' इति अस्या. संदि. । k) वाच्यना^१ इति अस्या. । l) 'हानोपेक्षा' इति निशा यनि. शोध: द. (वै. न. 'क्षारय्यवृ' इति ताम्रि.) ।

वचनीय-वः सार २४४: ४;
-वम् सार २३०: २३; २९२:
१७.

वचस्-वचः छां ८,७,३; वृ ६,२,
२; नाप ३, ६७; महा ५, १७;
कृ २; ह्यग २४: ९; वट ३,
३९; गी २, १०; १०-११, १;
१८, ६४; -वसः नाप ६, १; -वसा
योच् ८७; १५ ४१८: २५; सार
१, ४; नी १, ६९^१; -वसाम् अत्ति
४१.

वाक्-कः पा ४, १; -कम् पा ९,
२; -कम्-कम् पा ४, १.
वाकोवाक्य^१- -वयम् छां ७,
१, २; ४; २, १; ७, १.

वाकोवाक्य-भाषा-नारा-
शंसी^१- -सी: २प्र ३३: ५.

वाक्य-क्यः द्व १; -क्यम् ते ४,
१३; ६, ४; म्रवि ६१; ७८; १योत
७९; रार १, ७; दार १; पे ३, १;
महा २, १७; अथ्या ४०, त्रिता
४, ४; ह्यग २५: १२; वरा ५,
३६; सि १, ३; वपू १, ५; गी १,
२१; २, १; १७, १५; -क्यानि शु
१, १४; ३, १५; गु ८०; -क्येन
मैत्रे २, १५; गी ३, २; -क्यै:
योशि ३, ९; अध्या ३३.

वाक्य-त्रय- -यै: गु ८२.

वाक्य-शेष- -पात् म्र १, ४,
१२; २, १, १७.

वाक्य-संभव- -वः योशि ३, ६.

वाक्या(क्य-अ)त्मक- -का:
योशि ३, ७.

वाक्या(क्य-अ)न्वय- -यात्
म्र १, ४, १९

वाक्या(क्य-अ)थे- -थे: महा
२, ३३; त्रिता २, १०; -थम् शु
२, ५; -थस्य शु १, १७.

वाक्यार्थ-लब्ध-मनस्-
-नसः अत्ति २४.

वाक्यार्थ-वर्जित- -तः ते
५, ६.

वाक्यार्थ-विचार- -रः पै ३, १.

वाक्यार्थ-श्लोक- -का: शु
३, १.

वाक्यार्थो(र्थ-उ)पदेश- -शः
सां १, ९८.

वाच्- वाक् के शां^१: १, ३; ४,
१; प्र २, २; ४; ४; ८; सु २, १, ४;
२, २; तै १, ३, ४; ७, १; ऐ शां^१:
१-२, ४; छां शां^१: १, १, २;
५^१; २, ११; ३, ३; ४; ६; ७; ७, १;
१३, २; ४; २, ७, १; ८, ३; ११,
१; २३, ३; ३, १२, १^१; १३, ३;
१८, २; ३; ४, ३, ३; १६, १; ५, १,
२; ८^१; १३; ७, १; २१, २; ६, ५,
३; ४; ६, ४; ५; ७-८, ६; १५,
१; २; ७, २, १^१; २६, १; ८, १२,
४; वृ १, १, १^१; २, ४; ३, २;
२०-२३; २७; ४, ७; १७; ५,
३-७; ८^१; ११; १८^१; २१^१; ६, १;
२, १, १७; २, ३^१; ४; ४, ११; ३,
१, ३^१; २, ३; १३; ७, १७^१; ९,
२४; ४, १, २^१; ३, ५^१; ५, १२; ५,
२, ३; १४, ५; ६, १, २; ८^१; १४;
२, १२; कौ शां^१: २, १^१; २; ३;
८^१; १४; ३, ३^१; ४; ५; ७; ४,
१९; मैत्रि ६, ३१; मना २, ७२^१;
८०^१; आह मे मैत्रे शां^१; अशि
५, १४; योच् वा महा १सिन्या

कुं सावि हजा जावा शां^१; वृ
१, २; वृ ८, २^१; ४^१; सुया ५;
६; ते ४, ४६; सुत्र शां^१: १, १;
निर्वा शां^१: २, ९८: १८; नाद
आयो अत्त सौ शां^१; शां १,
७, ४६; शारी ७; अव्य शां^१:
१; सावि ८^१; पाशु २, ८; १४;
१अव २४; दे ५^१; १३^१; यो
३, १९; जाद शां^१: २, ८; ह
१५^१; ग ६; सर शां^१: १, ४;
२, ६^१; ७^१; ८; व शां^१: सु १,
२, १^१; सूता ३, ५; ६; नापू ५,
३३^१; वपू १, ४; वव ३, ६; पिम ३,
८; ६, ४; सांका ३४; गी १०, ३४^१;
वाक्-वाक् वृ ६, ४, २५; वाग्भिः
सार २८७: ४; वाचः के १, २; सुं
२, २, ५; तै २, ४; ९, १; ऐ १, ४;
छां १, १, २; ३, ६; ७; १२, ४; २,
८, १; ३; ५, १, १५; ७, २, २^१; ३;
१; वृ १, ५, ८; ११; ३, ७, १७; ४,
४, २१; मना २, ७९^१; म्र ३, १६;
वृ २, २; ३; ते १, २०; २१;
नाप ५, १; श १७^१; शां २, १;
महा ४, ५७; अज २, ३३; ४,
३७; त्रिता १, १६; कर् ३१; यो
३, २०; वरा ४, ३३; दार २३;
ह १७^१; सर २, ६^१; नापू ५;
३३^१; ३४; गु २०; व ४४३:
२३^१; ४६४: १९; पित्र २, ५;
६, ३; म्र २, ४, ४; वाचम् के १,
१; २; सुं १, २, ६; तै ३, १, १; ऐ
५, १; छां १, २-३, ३; ८, २;
५, ३, ६; ७, २, १; २^१; ३-५, १;
वृ १, २, ४; ३, २; १२; ५, ३; ३, ७,
१७; ५, ८, १; १४, ५; ६, २, ५;

a) उत्तरेण संधिरार्थः । b) मा १६, ४ । c) नैप्र. <वाकोपवाक्कि- <वाकोपवाक्- (सु. वैप २ यस्था.) ।

d) = कर्मोद्दिशयविशेष-वचन- , तदधिष्ठातृदेवता- , बीजाक्षरविशेष- प्रथ. । e) पाय ३, १५, २३ । f) ऐशा २, ७, १ ।
g) 'वाक्यम्' इति श्रद्धा. । h) 'वृत्तः' इति श्रद्धा., 'वा' इति शांथा ४, ८ । i) शी १९, ६०, १ । j) तैशा १०, ६४, १ ।
k) श्र ८, १००, ११ । l) = ऐ-बीजाक्षर- । m) श्र ८, १००, १० । n) श्र १, १६४, ४५ । o) अर्थः ? । p) तैशा १०,
६३, १ । q) तैशा ८, ४, १ । r) 'चम्' इति मंत्रा १, ७, १५ ।

४, १८; अशिष्ठ, २३; कौ२, १; ४;
 ५; १५; ३, २; ६; ८; सुवा २९;
 नाप ३, ४३; रार १, ५; दे ५९;
 सर १, ४; २, २९; ८; ९; ९;
 इ १११; १५; ८; पि १४; २प्र
 ३२; ११; ३५; २२; नाप ४,
 ८; नो ३, ५; वटु ३१६; १५;
 गा १७; पो ४२२; १; व ४३६;
 १४; वल ६, ४९; भव ५, १०;
 गी २, ४२; वाचा के १, ४; क
 २, ३, १२; सुं ३, १, ८; ऐ ३, ३;
 छां ४, १६, २; ५, १, १-११;
 द्, १, ४-६; ४, १-४; वृ १,
 २, ५; ३, २४-२५; २, २, ४; ३,
 १-२, ३; ४, १, २; ३, ५; द्,
 १, ८-१२; २, ७; मै २, ४; जा ५;
 गर्भ १; मना १, १२; २, २९;
 ३२; कौ १, ६; ७; २, १३,
 १४; ३, २-४; ६; वृजा १, १; वृ
 १, १; २; ते ५, ४०; ४५; ८६; नाप
 ३, २२; ४, ३८; पम २; पप ४ १८:
 १७; अञ्जि ८; जाद १, ७; १३; १७;
 या २, १; शा ३ ५९; नाप ४, २७;
 सार २ ७: १७; रशिसं २; गु ३ ७;
 र्वाचाम् हं १९; मैत्र १, ४, ९;
 ते १, ४९; ४, ५२; त्रिवि २,
 १५; द्, २३; ७, २०; ५०; ८,
 -१५; महा २, ११; १संन्या २,
 २८; अक्ष ५, ९६; सि ३, २; ५,
 ७; ६, २२; ३६; वाचि प्र २, १२;
 ते ३, १०, २; ऐ शां ९; छां २,
 ८, १; ३; ५, २१, २; वृ १, ३, २;
 २५; २७; २, १, १; ३, ७, १७, ९;

२४; ४, ३, ६; कौ शां ९; २, ५;
 ४, १; सुवा ५; नाद आवो निर्वा
 मुद्र अच सी शां ९; सर शां ९;
 ३, ३; व शां ९; ७; २प्र ३५:
 २१; नाप ४, १९; वाचे वृ ६,
 ३, २; व ४६५; ४९.
 वाक्कर्म-मनस- नोभि: रार
 ४, २.
 वाक्-काय-ह्लेश-वर्जित->-
 ता- -ता वृ ३, १५.
 वाक्-काय-सर्वा(वे-अ)ङ्ग-
 -ङ्गम् व ४२८: ६.
 वाक्-चपल- -ल: या २, १८.
 वाक्-पति- -ति: ते १, ६, २.
 वाक्-पाणि-पाद-पायू(वु-उ)-
 पस्थ- -स्था: त्रिमा १, ५; पै २,
 १२; सू १७; -स्थावु सांका २६१७.
 वाक्पाणिपादपायूपस्था-
 (स्थ-आख्या)>क्षय- -ख्यानि
 शारी १.
 वाक्-पाण्य(णि-अ)ह्यया-
 (क्षि-अ)दि- -दय: वरा १, ३.
 वाक्-प्रबोधक- -क: यो ३, २०.
 वाक्-प्रसाद-कर- -र अच ५.
 वाक्-सिद्धि- -द्धि: १योत ७४;
 त्रिमा २, ११२; दे २२; ह १०;
 -द्धिम् योशि ३, १०.
 वाक्सिद्धि- -द्धि- -द्धि सौ ३, ११
 वाग्-भगोचर- -र: वरा २, ८१.
 वाग्-अधिष्ठित- -त: त्रिमा १, ९.
 वाग्-अपंत- -त: कौ ३, ३.
 वाग्-अर्थ-कला-
 वागर्थकला-मय- -यम्

त्रिता १, ६८.
 वाग्-ईश- -शाय द १३.
 वाग्-ईश्वर- -र: कालि ४०१:
 ६; -शाय त्रिवि ७, २९.
 वागीश्वरी- -रि त्रिता ४,
 ३३; व ४३६; १६; हंयो ५; -नीम्
 जाद ६, ४०; -यै व ४६३: १५.
 वागीश्वरी-धाम-शिरस-
 ४, २.
 -र: यो २, ३२.
 वाग्-दण्ड- -ण्ड: नाप ६, ५;
 -ण्डे १संन्या २, ९७.
 वाग्-देवता- -ता सर १, ४; आय
 ३९८: ८-१२.
 वाग्-देवी- -वी सर ३, ५; सार
 २८५: २२; २८६: १; -वीम्
 गार ४०८: ११.
 वाग्-भव, वा- -वम् द ६; रार
 ३, १; त्रिता १, ६१; ६३; ६८;
 ७३; ७७; २, १०; वाम ६; १३;
 -वा विद्या १.
 वाग्भव-वृद्ध- -टम् त्रिता १,
 ३५; ६०; -टे आय ३९९: ५.
 वाग्भवा(व-अ)घ, वा- -घम्
 त्रिता १, ६७; -या त्रिता ३, १६.
 वाग्मिन्- -म्मी ग १८; पी
 ४२२: १६.
 वाग्-यत- -त: वृजा ३, २१; इ
 १८: १; प्र ३३: १६; एता १, २३;
 शि ७, ४८; -वानाम् इ ८: १०.
 वाग्-वादि(>)नी- -नि
 वपं ३११: ३; व ४३६: २;
 ४४४: १; -नी आय ३९८: ६;
 व ४२७: ९.

a) श्र ८, १००, ११। b) श्र ५, ४३, ११। c) श्र ८, १००, ११। d) श्र १०, ७१, ४। e) श्र १०, ७१, २। f) वैतु. शं. प्रष्ट. उत्तरेण समास इति। g) पा. 'वाव' इति शोधः द. (तु. मैत्रि २, ४)। h) तैसा १०, १, १२। i) तैसा १०, २४, १। j) तैसा १०, २५, १। k) वापा २, ११। l) 'वाचा' (तु. ज. ८) इति निग. अन्ता. पनि. शोधः द. (तु. शब्दा. संदि.)। m) एसा २, ७, १। n) तैसा २, १२, १। o) टम. १ उप. वम.। p) वा. मिथि. इति कृत्वा द्वि १ द.। q) 'स्थापयक' इति पा. 'स्थावु कर्म' इति पदद्वयपरः शोधः द.। r) तु. गम्. पृ २-१७। k। a) = ऐ-बीजाक्षर-। l) वाग्मिन्- (पा ५, २, १२४) इत्येवं मत उच्चारणमौक्त्यायै पनि. प्रयोगः।

वाग्-विजृम्भ(न>)गी-गीम्
त्रिता १,८१.

वाग्-विद्- -विदाम् महा २,
३३.

वाग्-विषय- -ये वृजा ७, ८;
रुजा ३, १.

वाग्-व्यापार- -रः नाप ६, १.

वाङ्-मनस्- -नसी क १, ३,
१३; नाप ३, ३९.

वाङ्मनो(नस्-अ)गोचर-
-रः ते ३, ३८; ४, ५२.

वाङ्मनोगोचर-त्व-
-त्वात् वृउ २, ११.

वाङ्मनो(नस्-अ)तीत-
गोचर- -रम् ते १, ७.

वाङ्-मनः-काय-कर्मन्- -मैमिः
नाप ५, ३१; शा १४.

वाङ्-मनः-प्राण-निरोधन-
-नात् मैत्रि ६, २०.

वाङ्-मनस्-चक्षुः-श्रोत्र-जिह्वा-
प्राण-रेतो-बुद्ध्या(दि-आ)कृति-
संकल्प- -रुपाः मना २, ६५.

वाङ्-मय- -यः वृ १-२, ५, ३;
ग ५; -यम् भव ५, ४; गो १७,
१५.

वाङ्-मात्र- -त्रम् सांस् १, ५८;
वाच-यम- -मः छा ५, २, ८;
कौ २, ३६; ४.

वाचाम्

वाचाम्-अगोचर-

वाचामगोचर-निरा-

कार-परब्रह्म-स्वरूप- -पः
त्रिवि ८, १५.

वाचामगोचर-मनो-
मनान(न-आ)नन्दाम्बुधि-

द्विष्यतेजोमय-ज्वालाजाल-
दीपिता(त-अ)त्यन्तोन्नता(त-अ)-
नन्त-शिखरा(र-आ)कार-
-रम् सि ६, २२.

वाचामगोचरा(र-अ)-
नन्त-चिन्मया(य-आ)नन्द-
वन- -नैः सि ३, २.

वाचामगोचरा(र-अ)-
नन्त-तेजोराश्य(शि-अ)न्तर-
गत- -तम् त्रिवि ७, ५०.

वाचामगोचरा(र-अ)-
नन्त-द्विष्य-तेजोराश्या-
(शि-आ)कार- -रः त्रिवि २, १५.

वाचामगोचरा(र-अ)-
नन्त-शुद्ध-बोध-विशेष- -वि-
ग्रह- -हम् त्रिवि ७, २०.

वाचामगोचरा(र-आ)-
नन्द- -न्दः ते ४, ५२.

वाचामगोचरानन्द-
तेजोराश्या(शि-आ)कार- -रम्
त्रिवि ७, ५०.

वाचामगोचरा(र-आ)-
नन्दब्रह्म-तेजोराशि-मण्डल-
-लम् त्रिवि ६, २३; सि ६, ३७.

वाचामगोचरा(र-आ)-
नन्दब्रह्म-तेजोराश्या(शि-आ)-
कार- -रम् सि ५, ७.

वाचिक- -कः जाद २, १३;
१४; -कम् शा १, २.

रवाच्[४पति-(परि.)]- वाचः व
४६५: ४७.

वाचक- -कः राष्ट्र १, ११; १२; ४,
२; भव २, ५०; शोस् १, २७;
-कम् ते ५, १२; -केन राष्ट्र ४, ३.

वाच्य- -च्यः राष्ट्र ४, २; -च्यम्

गै ५, ७; शु ३, १०; ते ५,
१२; त्रिवि ८, २०; योशि २,
३; इ १९: १०; सूता ६, ७;
सार २४८: २१; सिधि ३८३:
१०; सांस् १, ११९; गो १८,
६७; -च्यस्य शु ३, १०.

वाच्य-वाचक-

वाच्यवाचक-ता-
वाच्यवाचकता(ता-अ)-
भेद- -दात् अक्षि ४३?

वाच्यवाचक-संबन्ध- -न्धः
सांस् ५, ३७.

विवक्षित- -तः दत्ता १, १; -नैः
सर ३, ९.

विवक्षित-गुणो(ण-उ)परति-
-त्तेः प्रस् १, २, ३.

वचफन्^{१६}-

वाचक(व<)वी- -वी वृ ३, ६,
१; ८, १; १२.

१वज्र^१- -ञ्ज व ४५९: २१७^म;
४६१: १७^म; -ञ्जः आह ३७^म; ते ३,
७१; नाप ४, ३८^म; पप ४१८:
३१७^म; -ञ्जम् क २, ३, २; त्रिवि
७४; मुद्र २; इ १३: २; शि ६,
९७; गो १०, २८; -ञ्जेण महादि,
२१; गह ९; १२: २३; २४; शौ
५३: ९; -ञ्जेपु त्रिवि ७, ४३; ४८.

वज्र-काय- -य लां २१४: ५.

वज्र-कुम्भ- -म्भानि त्रिवि ७५.

वज्र-ता- -ताम् महा ४, १३३.

१वज्र-तुण्ड^२-

वज्रतुण्ड-वज्रपक्षा(व-अ)-
लंकृत- -ताय व ४६५: ६.

२वज्र-तुण्ड^३- -ण्ड लां २१४: ५;
२१६: ४; -ण्डाय गह ६.

a) 'ते इति श्रव्या. । b) आवाङ्मनो' इति श्रव्या. यनि. शोधः द. (तु. निसा.) । c) तैश्चा १०, ५२, १ ।
d) 'तः इति श्रव्या. । e) 'रम' इति निसा. । f) उत्तरेण संघिरार्थः । g) तैश्चा २, १२, १ । h) पा. १ 'अवाच्यम्'
इति शोधः द. (तु. मैत्रि ६, ७) । i) 'वक्ता' इति निसा. संदि. 'वक्ता' इति श्रव्या. । j) 'दाभे' इति निसा. यनि.
शोधः द. (तु. श्रव्या.) । k) व्यु? = अर्थविशेष- । l) वप्रा. वैप १ यद. । m) श्र १०, ८३, १ । n) श्र १०, ८४, ६ ।
o) आप्मं २, ९, ५ । p) कस. । q) वस. ।

१ वज्र->

वज्र-दंष्ट्र- -द्वय गह ६.
 वज्र-दण्ड-समुद्धृत- -ताः योशि १, ११८.
 वज्र-दन्त- -०न्त लां २१४: ६; -न्ताय गह ६.
 वज्र-दर्पण- -णम् सं २, १, १०.
 वज्र-देह- -०ह लां २१४: ४.
 वज्र-नख- -०ख लां २१४: ५; -खाय मना १, ६५^०; खपु ४, १३^०; त्रिवि ७, ३९^०; गह ६; न्य ८४: १९; व ४६३: ५^०; ४६५: ५.
 वज्रनल-वज्रतुण्ड- -ण्डाय गह १०.
 वज्र-नेत्र- -०त्र लां २१४: ५.
 वज्र-पक्षा(क्ष-अ)लंकृत-शरीर- -राय गह १०.
 वज्र-पक्षा(क्ष-आ)लक्षित-शरीर- -राय गह ६.
 वज्र-पञ्चर^{१०}- -रेण वपं ३११: १.
 वज्रपञ्जर-नामन्- -ञ्जा वपं ३१३: ३.
 वज्र-पाणि- -णिः दे ९; त्रि ८; -णिम् रार २, ७२.
 वज्र-पुच्छ- -०च्छ लां २१४: ४; -च्छाय गह ६.
 *वज्र-यल-
 *वज्रबल-क-
 *वज्रबलिका-
 *वज्रबली-
 !वज्रोली^{१०}- -ली १योत२७^०; स्त्रीम् १योत१२६: १२८.
 वज्र-बाहु- -हुः मना १, १०^०; -०हो लां २१४: ५.

वज्र-भृत्- -भृत् ए ५.
 वज्र-मुख- -०ख लां २१४: ५.
 वज्र-रेखा- -खे तारा ८३: २३.
 वज्र-रोम- -०म लां २१४: ५.
 वज्र-लान्छि(त>)ता- -ता त्रिणा २, १३५.
 वज्र-शक्ति-खड्ग-पाशा(श-अ)- ह्कुश-गदा-त्रिशूल-चन्द्र- मुसल-पद्म- -द्यानि सूता ५, १३.
 वज्र-शरीर- -०र ला २१४: ६.
 वज्र-शूला(ल-आ)द्य- -द्यम् रापू ४, ५२.
 वज्र-सूची^{१०}- -चीम् वसु १.
 वज्रसूचि-क^{१०}- -कम् मु १, १, ३३.
 वज्र-स्तम्भ-
 वज्रस्तम्भ-वत् १संख्या २, ५०.
 वज्र-हस्त^१- -स्ताभ्याम् व ४४९: १६.
 वज्रा(अ-अ)द्कुवा-हस्त- -स्तः व ४३८: २२.
 वज्रा(अ-अ)ङ्ग- -ङ्गम् लां २१३: १३.
 वज्रा(अ-आ)शिस- -शिसः व ४५६: १५
 वज्रा(अ-आ)सन^{१०}- -नम् यो १, ४; ६; -ने यो १, ४८.
 वज्रासन-गत- -तः योशि १, ८४.
 वज्रासन-स्थित- -तः योशि १, ११२.
 वज्रिन्- -०ज्रिन् व ४६०: १०^०.
 वज्रे(अ-इ)द्वनील-वैदुर्य-पद्मराग^१- -गम् शि ६, ९०.

वज्रे(अ-ई)धर(>)री- -री आय ३९९: ६; -रीम् विद्या २.
 वज्रो(अ-उ)दक(>)का- -का तारा ८३: १५.
 रवज्र^१-
 वज्रा(अ-आ)दि- -दि, -दिभिः रार ३, १.
 √वज्र्(°वधा.)> वज्रि, वज्रसि धे ४, ३५^०.
 वज्र्यते नाप ४, २९.
 वज्रयितुम् भव १, ५५.
 वज्रित- -ताः स्व ६१: १४.
 √वट^०(°वधा.)
 वट^१- -टम् महा ५, १३३; शि ७, ८८; -टस्य सार २२५: ११; -टात् वृ ९, ५.
 वाट्य^{१०}- -ट्ये मैत्रि ७, ८^०.
 वट-क(एक>)णिका- -कायाम् ससा १, १७.
 वटकणिका-इयामाकतण्डु- ल-बालाम्-शतसहस्र- -विक- ल्पना(ना-आ)दि- -दिभिः १आ ११^०; २आ ३^०.
 वट-धान(>)ना- -नाः महा ५, १३३.
 वट-पद- -दम् द ११.
 वट-फल- -लम् शि ६, ७.
 वट-धीज-सामान्य- -न्यम् वृ ९, ५.
 वटधीजसामान्य-वत् वृ ९, ५.
 वट-धीज-स्थ- -स्थः रार ५, ६; रापू २, २; -स्थम् दत्ता १, २.
 वट-भाण्डीर- -रः क २४.
 वटा(ट-अ)धस(>) द ५.

a) तैआ १०, १, ६। b) = तदाख्योपनिषद्विशेष-। c) वृ. गपू. वृ ८७८। d) वज्रो^० इति निता.।
 o) तैआ १०, १, १०। f) मलो. वस.। g) कस. = योगासनविशेष-। h) ऋ १०, ८३, ६। i) समाहारे द्रस.।
 j) व्यु. ! = दाशरथिमठिनविशेष-। k) शी १०, ८, २७। l) धा. अर्थः ! = वृत्तविशेष-। m) स्वार्थे ष्यम् प्र. [पाषा ५, १, १२४; (वैदु. राती. <वाटो-? इति)]. n) °ट्यैः इति सात. यनि. सोवः द्र.। o) निता., भान. (वृ नादी),
 मण्या. च यनि. सोवः द्र.।

वाग्-विजृम्भि(व्>)णी-णीम्
त्रिता १,८१.

वाग्-विद्- -विदाम् महा २,
३३.

वाग्-विषय- -ये वृजा ७, ८;
रजा ३, १.

वाग्-व्यापार- -रः नाप ६, १.

वाङ्-मनस्- -नसी क १, ३,
१३; नाप ३, ३९^०.

वाङ्मनो(नस्-अ)गोचर-
-रः ते ३, ३८; ४, ५२.

वाङ्मनोगोचर-स्व-
-त्वात् वृत् २, ९^०.

वाङ्मतो(नस्-अ)तीत-
गोचर- -रम् ते १, ७.

वाङ्-मनः-काय-कर्मन्- -मैमिः
नाप ५, ३१; शा १४.

वाङ्-मनः-प्राण-निरोधन-
-त्वात् मैत्रि ६, २०.

वाङ्-मनश्-चक्षुः-श्रोत्र-जिह्वा-
प्राण-रेतो-बुद्ध्या(दि-आ)कृति-
संरूप- -रुपाः मना २, ६५^०.

वाङ्-मय- -यः हृ १-२, ५, ३;
ग ५; -यम् भव ५, ४; गो १७,
१५.

वाङ्-मात्र- -त्रम् सांस् १, ५८;
वाचं-यम- -मः छां ५, २, ८;
कौ २, ३^०; ४.

वाचाम्

वाचाम्-अगोचर-

वाचामगोचर-निरा-

कार-परब्रह्म-स्वरूप- -पः
त्रिवि ८, १५.

वाचामगोचर-मनो-
-मना(न-आ)नन्दाग्नि-
-व्य-

द्विष्यतेजोमय-ज्वालाजाल-
दीपिता(त-अ)त्यन्तोन्नता(त-अ)-
नन्त-शिलारा(र-आ)कार-
-रम् सि ६, २२.

वाचामगोचरा(र-अ)-
नन्त-चिन्मया(य-आ)नन्द-
यन- -नैः सि ३, २.

वाचामगोचरा(र-अ)-
नन्त-तेजोराशय(शि-अ)न्तर-
गत- -तम् त्रिवि ७, ५०^०.

वाचामगोचरा(र-अ)-
नन्त-द्विष्य-तेजोराशया-
(शि-आ)कार- -रः त्रिवि २, १५.

वाचामगोचरा(र-अ)-
नन्त-शुद्ध-बोध-विशेष- -यि-
ग्रह- -हम् त्रिवि ७, २०.

वाचामगोचरा(र-आ)-
नन्द- -न्दः ते ४, ५२.

वाचामगोचरानन्द-
तेजोराशया(शि-आ)कार- -रम्
त्रिवि ७, ५०.

वाचामगोचरा(र-आ)-
नन्दब्रह्म-तेजोराशि-मण्डल-
-रम् त्रिवि ६, २३; सि ६, ३७.

वाचामगोचरा(र-आ)-
नन्दब्रह्म-तेजोराशया(शि-आ)-
कार- -रम् सि ५, ७.

वाचिक- -कः जाद २, १३;
१४^०; -कम् शां १, २^०.

रवाच[पति-(परि.)]- वाचः व
४६५ : ४९^०.

वाचक- -कः राष्ट्र १, ११; १२; ४,
२; भव २, ५०; योस् १, २७;

-कम् ते ५, १२; -केन राष्ट्र ४, ३.

वाच्य- -च्यः राष्ट्र ४, २; -च्यम्

मे ५, ७^०; शु ३, १०^०; ते ५,
१२; त्रिवि ८, २०^०; योशि २,
३^०; इ १९ : १०; सूता ६, ७;
सार २४८ : २१; सिधि ३८३ :
१०; सांस् १, ११९; गी १८,
६७; -च्यस्य शु ३, १०.

वाच्य-वाचक-

वाच्यवाचक-ता-
वाच्यवाचकता(ता-अ)-
भेद- -दात् अक्षि ४३^०!

वाच्यवाचक-संबन्ध- -न्यः
सांस् ५, ३७.

विवक्षित- -तः दत्ता १, १; -नैः
सर ३, ९.

विवक्षित-गुणो(ण-उ)पपत्ति-
-त्तेः प्रम् १, २, २.

वचफन्^१-

वाचक(व^१>)वी- -वी वृ ३, ६;
१^०; ८, १; १२.

१वज्र^१- -अ व ४५९ : २१९^०;
४६१ : १९^०; -ज्रः आर ३९^०; ते ३,
७१; नाप ४, ३८^०; पप ४१८ :
३१९^०; -ज्रम् क २, ३, २; प्रवि
७४; मुद्र २; इ १३ : २; शि ६,
१७; गी १०, २८; श्रेण महादि,
२१; गरु ९; १२^०; २३^०; २४; शौ
५३ : ९; -ज्रम् त्रिवि ७, ४३; ४८.

वज्र-काय- -य लां २१४ : ५.

वज्र-कुम्भ- -म्भानि प्रवि ७^०.

वज्र-ता- -ताम् महा ४, १३३.

१वज्र-गुण^१-

वज्रगुण-वज्रपक्षा(व-अ)-

लंकृत- -ताय व ४६५ : ६.

२वज्र-गुण^१- -गुण लां २१४ : ५;

२१६ : ४; -ण्डाय गरु ६.

a) ०ले इति अख्या. । b) आवाङ्मनो^० इति अख्या. यनि. शोधः द. (द्र. निसा.) । c) तैश्चा १०, ५२, १ ।

d) ०तः इति अख्या. । e) ०रम^० इति निसा. । f) उत्तरेण संधिरार्थः । g) तैश्चा २, १२, १ । h) पा.३ 'अवाच्यम्'

इति शोधः द. (द्र. मैत्रि ६, ७) । i) 'वक्त्र' इति निसा. संदि. 'वक्त्र' इति अख्या. । j) 'दामो' इति निसा. यनि.

शोधः द. (द्र. अख्या.) । k) व्यु? = अष्टविशेष- । l) यत्रा. वैपश् यद्र. । m) ष्ट १०, ८३, १ । n) ष्ट १०, ८४, ६ ।

o) आपमं २, ९, ५ । p) कस. । q) वस. ।

वज्र-दंष्ट- -प्राय गह ६.
 वज्र-दण्ड-समुद्भूत- -ता: योशि
 १,११८.
 वज्र-दन्त- -०न्त लां २१४:६;
 -न्ताय गह ६.
 वज्र-दर्पण- -णम् मं २,१,१०.
 वज्र-देह- -०ह ला २१४:४.
 वज्र-नख- -०ख लां २१४:५;
 -खाय मना १, ६९^०; वृषू ४,
 १३९^०; त्रिवि ७, ३५९^०; गह ६;
 वृषू ८४:१५; व ४६३:५९^०;
 ४६५:५.
 वज्रनख-वज्रतुण्ड- -ण्डाय गह
 १०.
 वज्र-नेत्र- -०त्र लां २१४:५.
 वज्र-पक्षा(त्-अ)लंकृत-शरीर-
 -राय गह १०.
 वज्र-पक्षा(त्-अ)लक्षित-शरीर-
 -राय गह ६.
 वज्र-पञ्जर^{१०}- -रेण वपं ३११:१.
 वज्रपञ्जर-नामन्- -ञ्जा वपं
 ३१३:३.
 वज्र-पाणि- -णि: दे ९; त्रि ८;
 -णिम् रार २, ७२.
 वज्र-पुच्छ- -०च्छ लां २१४:४;
 -च्छाय गह ६.
 *वज्र-बल-
 *वज्रबल-क-
 *वज्रबलिका-
 *वज्रबली-
 †वज्रोली^{१०}- -ली
 १योत२७^०; -लीम् १योत१२६;
 १२८.
 वज्र-बाहु- -हु: मना १, १०९^०;
 -०हो ला २१४:५.

वज्र-भृत्- -भृत् ए ५.
 वज्र-मुख- -०ख ला २१४:५.
 वज्र-रेखा- -खे तारा ८३:२३.
 वज्र-रोम- -०म लां २१४:५.
 वज्र-लान्घित(त>)ता- -ता त्रिवा
 २, १३५.
 वज्र-शक्ति-खड्ग-पाशा(श-अ)-
 इकुश-नादा-त्रिशूल-चन्द्र-
 मुसल-पद्म- -अग्नि सूता ५,
 १३.
 वज्र-शरीर- -०र लां २१४:६.
 वज्र-शूला(ल-आ)व्य- -व्यम् रापू
 ४, ५२.
 वज्र-सूची^{१०}- -चीम् वसू १.
 वज्रसूचि-क^{१०}- -कम् सु १, १,
 ३३.
 वज्र-स्तम्भ-
 वज्रस्तम्भ-वत् १संन्या २, ५०.
 वज्र-हस्त^१- -स्ताभ्याम् व ४४९:
 १६.
 वज्रा(ञ-अ)इकुश-हस्त- -स्त: व
 ४३८:२२.
 वज्रा(ञ-अ)ङ्ग- -ङ्गम् लां २१३:
 १३.
 वज्रा(ञ-आ)शिर- -शिर: व
 ४५६:१५.
 वज्रा(ञ-आ)सन^{१०}- -नम् यो १, ४;
 ६; -ने यो १, ४८.
 वज्रासन-गत- -त: योशि १,
 ८४.
 वज्रासन-रिथत- -त: योशि १,
 ११२.
 वज्रिन्- -०ज्रिन् व ४६०:१०९^०.
 वज्रे(ञ-इ)द्वनील-वैदुर्ष-पद्मराम-
 -गम् शि ६, ९०.

वज्रे(ञ-इ)धर(>)री- -री आय
 ३९९:६; नीम् विद्या २.
 वज्रो(ञ-उ)द(क>)का- -का तारा
 ८३:१५.
 रवज्र^१-
 वज्रा(ञ-आ)दि- -दि, -दिभि: रार
 ३, १.
 ✓वज्र्(*वधा.), > वज्रि, वज्रसि श्वे
 ४, ३९^०.
 वज्र्यते नाप ४, २९.
 वज्रयितुम् भव १, ५५.
 वज्रित- -ता: व ६१:१४.
 ✓वट्(*वधा.)
 वट^१- -टम् महा ५, १३३; शि ७,
 ८८; -टस्य सार २२५:११;
 -टान् वृष ९, ५.
 वाट्य^{१०}- -ट्ये मैत्रि ७, ८^{१०}.
 वट-क(शक>)णिका- -कायाम्
 सता १, १७.
 वटकणिका-द्रयामाकतण्डु-
 ल-वालाभ-शतसहस्र-विक-
 ल्पना(ना-आ)दि- -दिभि:
 १आ ११^०; २आ ३^०.
 वट-पा(न>)ना- -ना: महा ५,
 १३३.
 वट-पद- -पदम् द ११.
 वट-फल- -लम् शि ६, ७.
 वट-बीज-सामान्य- -न्यम् वृष
 ९, ५.
 वटबीजसामान्य-वत् वृष
 ९, ५.
 वट-धीज-स्थ- -स्थ: रार ५,
 ९; रापू २, २; -स्थम् दत्ता १, २.
 वट-भाण्डीर- -र: कृ २४.
 वटा(ट-अ)धस(>:) द ५.

a) तैश्चा १०, १, ६। b) =तदाद्योपनिषद्विशेष-। c) तु. गपू. पृ८७C। d) मज्जो^{१०} इति निसा.।
 ०) तैश्चा १०, १, १०। f) मलो. कम्.। g) कस. =भोगासनविशेष-। h) श्र १०, ८३, ६। i) समाहारे दस.।
 j) श्रु. =दाशरथिमन्त्रिविशेष-। k) शो १०, ८, २७। l) धा. अर्थः =वृत्तविशेष-। m) स्वायं प्यम् प्र. [प्राक्
 ५, १, १२४; (वैदु. रातो. <वाटो-? इति)]. n) °ट्यैः इति सात. यनि. योद्यः द्र.। o) निमा., आन. (तु. नादी.),
 अम्प्या. च यनि. योद्यः द्र.।

वटाधः-कृत-नीढ- -टम्
 द १०.
 वटा(ट-अ)श्रथ-मूल- -ले
 तारा ८३: १३.
 वटक^१- -काय वृजा ३, २९.
 वा(टक>)टिका- -का: सार२८१:
 ११.
 व(⟨>व)टु^०-
 वटु-क^१- -क: वटु ३१३: ३-१०;
 ३१४: १-२३; ३१७: १; ९;
 १९; व ४३०: २०; वपु २, ४;
 -कम् वटु ३१७: १३; पी ४२२:
 ६; -काय व ४३०: २१.
 वटुके(क-ई)थर- -र: वटु ३१५:
 १४^१; ३१६: १७; १९.
 वटुको(क-उ)पनिपट्^१- -पदम्
 वटु ३१८: ३.
 वडव(व>)वा^१- -वा वृ १, ४, ४;
 सुभा २.
 वय(⟨>व)ड(व⟨>व)वा^१०-
 वाडव- -व: पित्र १, १२५^१;
 -वम् महा ३, ५२.
 वडवा(व-अ)मि- -मि: योशि ५, ३०.
 वडवा(व-अ)मल- -लम् व ४३०:
 १९.
 वडवानल-दुर्गा-मृत्यु- -त्यो:
 वपं ३१२: २२.
 ✓वण्(शब्दे)
 वा(णि>)णी- -णी सी ३२; रुह
 १८; सर ३, ९; -णीम् रार १, ७;
 रापु ५, ३; सर १, ४; काम २;
 -व्या सार २३२: २२.
 घणिज्^१-
 वाणिज्य^१- -ज्ये सि ७, ११९.

वाणिज्या(ज्य-आ)दि- -दिना
 सु २, १, १.
 वत = वत गपु.
 वित्वम्^१ छाग २३: ६; ८.
 वत्स^१- -स्त प्रवि ५५; ५७; अक्ष
 १, १०; २ प्र ३४: १५; -स्त:
 छां ३, १५, २; वृ ५, ८, १; मना
 २, ३८५^१; वृजा ३, ३; २ प्र ३५:
 ४; -स्तम् छां ३, १५, २^१; वृ १,
 ५, २; -स्ताय सांस् २, ३७.
 वत्स-तर- -रा. सार २५०: २०.
 वत्स-वत्सवती-सहित- -ता: सार
 २७४: २०.
 वत्स-विवृद्धि-निमित्त- -त्तम् सांका
 ५७.
 वत्स-ही(न>)ना- -नाम् वृजा ३, १.
 वत्स^१-
 वात्स्य^१- -रस्य:, -रस्यात् वृ २,
 ६, ३; ४, ६, ३; ६, ५, ४.
 वात्सी-
 वात्सी-पुत्र- -त्र:, -त्रात्
 वृ ६, ५, २.
 वत्स-नपात्^१- -पात्, -पात: वृ २,
 ६, ३; ४, ६, ३.
 वत्स^१-
 वत्स-राज^१-
 वत्सराजा(ज-आ)दि- -दिभि:
 योरा ४.
 वत्सर^१- -र: त्रिवि ३, ४; ए ११;
 -रम् मैत्रि ६, १४; ते ६, १८;
 -रात् जाद ६, ११.
 वत्सर-शत- -तम् त्रिवि ३, ४^१.
 ✓वट्>वादि, वदति छां १, २, ३;
 ७, १७, १^१; वृ १, ३, २^१; ४, १४^१;

५, १८; ४, ३, २६^१; ४, २; गमे
 १; मै ५, ६^१; कौ २, १३^१०;
 वृजा १, १; वृपु १, १; २, १७५^१;
 ते ५, ४५; त्रिवि १, ५; रापु १,
 १२; अध्या ५९; वदन्ति के १,
 १; क १, २, १५; ३, १; १४; सुं १,
 १, ४; छां २, २४, १; खे १, १;
 २, १३; ४, ९, ६, १; मैत्रि ७, ९;
 मना २, ७९^१०; अशि ५, १४;
 नाप ५, १; सी ८; दे ५५^१; सर २,
 ६५^१; नापु ५, ३३५^१; वदन्ती ३
 वृ ६, २, २; वदन्तितराम् सार
 २१९: ५; वदसि भवर, ३३; गी १,
 १४; वदामि अक्ष १, १८; सुं १, १,
 ७; सार २९०: १२; मुद्: वदाम:
 छां १, ८, १; वदताम् छां १, ८, २;
 वदस्व यि ४; वद क १, २, १४;
 ते १, ११, १; वृ ३, ९, १०-१७;
 २३; महा २, १५; योशि १, १; सर
 १, १; सुं १, ९, ६; सूता ३, ५^१; सार
 २१९: ३; गी ३, २; वद-वद वपं
 ३११: ३; व ४३६: २; ४४४:
 १; ४५७: ५; वदाम वृजा १, १;
 अयदत् वृजा ६, १; अवद: छां
 ५, ३, ५; ७; वदेत् सुं ३, २,
 १०; वदेत् छां ५, ११, ६; वृ ४,
 ३, २६; ३ १; जा ४^१; प्रवि ७८:
 नाप ३, ४३^१; द २; रार २, ३०;
 मुद्र ४; महा ५, १०५; १ संन्या
 २, ७; वदेयु: २ प्र ३३: २२^१;
 वदेम मना २, ४१५^१.
 ऊदिरे आर्षे ७: २ १^१; वदिप्यन्ति
 भव १, ५७; गी २; ३६; वदिव्ये
 वृ ४, ३, १; वदिप्यामि ते शां ५^१;

a) वटुन् प्र. (पाठ २, ३७)। b) प्रादेशिकोच्चारणभेदमात्रत्वेन निर्देशः। c) व्यु: = पार्षदविशेष-।
 d) व्यु: = घोटिका-। e) व्यु: = जलाम्नि-। f) वैपश् यद्र। g) पा? (✓वृ>) 'वृत्त्य' इति वा 'वृत्वा' इति वा शोधः
 स्यात्। h) वैपश् यद्र। इह = शिशु-, प्रिय- प्रथ्। i) तैश्चा १०, ४८, ११। j) = गोत्रप्रवर्तक-श्रृणुविशेष-। वैपश् यद्र:।
 k) व्यु: = चतुर्विधविशेष-> = तद्देश-। l) 'चरति' इति मैत्रि ६, ६। m) मकृत् 'वल्कति' इति निशा. पा. अष्ट:। n) श्रृ
 १, ४०, ५। o) तैश्चा १०, ६३, १^१। p) श्रृ ८, १००, ११। q) श्रृ १, १६४, ४५। r) पा: 'वेद' इति शोधः द्र:।
 s) 'विन्देत्' इति आन., अज्या.। t) तैश्चा १०, ३९, १। u) 'वृदिरे' इति पा: १ यनि. शोधः द्र:। v) तैश्चा ७, १, १^१।

ए शां^१ वृ १, ५, २१; कौ
नाद आवो निर्वा मुद्र अक्ष सौ
सर व शां^१; १कौल शां^१;
अवादिपत् तै १, १२, ११०.
वावदिपत् ऐ-३, १३.
वावयेत् ह १७^१; व ४४३:
२३.
रउदित, ता- -त्त: गौ ३, ३; महा
५, १७; जाद ७, २; -तम् वृजा
४, १; त्रिता १, ४१; व ४६२: २०.
वदत्- -वत् कौ २, १४^१; -वत्: कथु
२, १; -दत्ति मैत्रि ६, २२; -दतो:
छा १, ८, २; -दत् वृ १, ४, ७; ४, २,
२६; -दन्त: छां ५, १, ९-११; वृ
६, १, ९-१२; स्व ६१: १९;
कथु २, १^१; -दन्तम् वृ १, ४,
१४^१.
वदन्ती- -न्ती ह १५; सर २,
४; -न्तीम् कौ ३, २^१; -न्त्य:
सार २३२: १९.
वदन^१- -नम् शारी १; -ने व
४५६: २०; -नेन वरा ५, २३;
-ने: गौ ११, ३०.
वदिष्यत्- -ष्यत: नी ३, ५.
वाद- -द: गौ १, १८; गौ १०,
३३^१; -त्रा: गौ २, २४^१; -दे
शि ७, ६६^१.
वाद-विद- -विद: गौ २, २४.
वावयेत्- -यत् राधा २, ९.
वादिप्र^१-
वादिप्र-व्यज-वाहक- -कात्

शि ६, १७३.
वादिप्र-वादिन्- -दिन: व ४.
वादिन्- -दिन: गौ ३, २०; ४, ३:
६; महा ५, २२; वरा १, १; गौ
२, ४२.
वादि-विप्रसिपत्ति- -त्त: सांस्
१, १११.
वाद्य^१-
वाद्या(य-आ)रम्मो(म्भ-उ)-
पचार- -रेण शि ६, १५३
वाद्यमा(न)ना- -नायै वृ २, ४,
९; ४, ५, १०.
व(द्रि)वधी^१- -द्धीभि: आये ७: ५.
वध^१, वधील वध ४०: १२; ४४५:
१८; ४५०: १७; ४५४: २;
वधी: खे ४, २२१^१; मना २,
५१^१; ५२^१; ५३^१; श ५;
२शिसं २८^१; २९^१.
वधयेत् इ १०: १५; भव २, ५.
वध- -घा: सांका ४२; -धाय म १,
६^१; -घेन छां ८, १, ५; १०, २; ४.
वध-वन्ध- -न्धी भव ४, १६.
विधाशङ्कम्^१ वृ ४, १, ३.
वध(घु)धू^१- -धूम् व ४६२: १५.
वध(घु)धू^१- -धू: तारा ८३: १४;
-धूम् तारा ८३: ३.
विधूकृ^१शोषणदहनप्रोत्सारणा-
मृतीकृति: तारा ८३: १७.
वदन^१(वपा.)
वन^१- -नम् कै ४, ६^१; सुभा ४; नाप
५, १५; सार २, १२; कुं ६; ७;

सार २२२: १५; २३२: १४;
२८९: ८; शि ६, ११४; -नाव
जा ४; नाप ३, ७७; पप ४१८:
४; या १, १; भव १, २; -नानाम्
मना २, १२, १९^१; २, ४०^१;
सार २६०: ३; १^१व ४४२: २०;
४४८: ३; ४५२: १०; -नानि
मना १, ९९^१; गोउ २४; राधा
३, २^१; ७; सार २२१: ११; २३३:
१४; २५८: १९; २६०: २;
२६६: ३; २८५: २१; वपू १,
१; वव ३, २२; -ने वृजा ३, ३४;
ते ६, ९८; नाप ३, ८६; जाद ५,
४; कृ७; गोउ २४; सार २२१:
२२; २२७: २२; २३२: २०;
२४३: १६; २४६: ६; २८९:
११; शि २, २०; ७, १५; ९६;
१कौल ८: ४; २कौल १४;
-नेष्य: मना २, ७६^१; -नेपु नाप
६, २; गोउ २६; सार २३३:
१६; २६०: २; २७५: २३.
वन-गत-गज-सिंह(ह-ह)न्द्र-
-न्द्र सां २१५: १३.
वन-सि-वेदी^१- -दि व
४३६: २३^१.
वन-दुर्गा^१- -गां व ४२६: २;
-गां व ४३६: २३.
वनदुर्गा-प्रसाद-मिदय-
(दि-आ)र्ध- -र्धं व ४२६: ३.
वन-पु(त्रक)त्रिही^१- -का:
१संन्या २, ५४.

a) ऐसा २, ७, १^१. b) तैसा ७, १२, १^१. c) तैसा ७, १२, १^१. d) 'वादये' इति पा.१ यनि. शोष: द. [ग्र. निता, नाउ., 'वादय' इति मंत्रा. (१, ७, १५) च]। e) ०^१तीम् इति निता. यनि. शोष: द. (ग्र. खान., अज्जा., शांका ५, २)। f) =युज-। g) व्यु.१ =वरत्रा-। h) श्र १, ३४, ६। i) 'भवधी:' इति निता. यनि. शोष: द. (ग्र. श्र १, ११४, ८)। j) तैसा ३, १५, १। k) श्र १, ११४, ७। l) श्र १, ११४, ८। m) पा.१ यथा(प-अ)ना(ह)डा- इत्यस्य विधि. इति कृत्वा ध्रुतो न. द्वि१ स्यात्। यदा ०डा (प्र२) इत्येव पा. स्यात् (ग्र. माशमा १४, १, १०, ३)। कृत्वा वा ०डा-> ०डा इति कर्तारि कृत्: ध्रुति: स्यात्। अयापि वा ०धा(प-अ)मन्त्र-> ०डा इति पदं स्यात्। सर्वथापि नमनपराया ध्रुतो तावत्पर्व द. [वेत् शं. प्रथ. उप. भासाडा- इति परयन्त आरम्भ्यत्वादिन: (एतदनु वैप २, ८७७ इत्यत्र यथावत् शोष: द.)]। m) वैपश् यद.। o) व्यु.१ =नी-वीनाचर-। p) पा.१। q) श्र ९, १६, ६। r) श्र १०, ८९, ५। s) श्र २, १, १। t) ०रवि० इति पा.१ यनि शोष: द.।

घन-प्रस्थ^{१०}-

वानप्रस्थ^{१०}-स्थः धारु २;
आला १८; त्रिवि ४९; नाप ३,
७७; वा ९; पप ४१८:७; जावा
२६; गोव ६६:१२; स ३७९:
२१; -स्थम् कुं ६; -स्थाः आध्र
३; -स्थेन वृजा ८, ६; वृपू ५, १९.

वानप्रस्थ-गृहस्थ-

-स्थान्याम् नाप ५, १९.

वानप्रस्थ-धर्म- -मैम्
नाप १^१.

वानप्रस्थ-शत- -तम्
वृजा ८, ६; वृपू ५, १९.

वानप्रस्था(स्थ-आ)श्रम-
-मम् नाप १^१; १संन्या २, १३;
-मे निर्वा २९८: १६.

वानप्रस्थै(स्थ-ए)अ-
(क-आ)धिक-शत- -तम् व ४
५, २३.

वन-फल-वृणौ(ए-ओ)पधि-
-धीः सार २७६: १६.

वन-भार- -राः कृपु १२.

वन-मार्ग- -मैण कुं ३.

वन-माला^{११}- -लया सार २६५:
२०; -लायै त्रिवि ७, ४२.

वनमालिन्- -लिनम् नापू
४, २३; गोपू ८.

वन-लीला- -लाम् सार २८७:
७; -लयाम् मार २२९: १२;
२४९: ४.

वनलीला(ला-आ)सक-
-क्ताः सार २५१: ६.

वन-वासिन्- -सिनः कृ १.

वन-विहार- -रे सार २७८: ५^१.

वनविहार-लीला- -ला सार
२३६: २३.

वनविहार-स्थान- -नम्

सार २७८: १३.

घन-वैकुण्ठ- -ण्ठम् कृ ९.

घन-स्थ,स्था- -स्थः नाप २;
भय २, २६; ३४; -स्थानाम् वृजा
५, ६; -स्थाम् रापू ४, १७.

घन-स्थान-(स>)शा^१- -शा
सार २६३: ४.

घना(न-अ)न्तर- -नम् मैत्रे २,
१५.

घना(न-अ)रण्य- -ण्ये म ४८:
१२.

घना(न-अ)वनि-विहार- -रेण
अक्षि १७.

घनिन्- -नी जा ४^१; नाप ३,
७७; पप ४१८: ४; या १, १.

घनो(न-उ)पेत- -तम् शि ६,
१०८; १०९.

घनौ(न-ओ)पधि- -धीनाम् सी
१५.

घन्य-

घन्य-स्रज्-

घन्यस्रज्-विन्- -वी
राधा ३, ११.

घनि(त>)ता-

घनिता(ता-आ)दि- -दिषु सार
४, २.

घनिता-हत- -तः महा ६, २३.

घनस्पति^{१२}- -तयः तै १, ७, ११; वृ
१, १, १; सार २२४: ९; गु १७;

पिंज १, १०^१; १^{११}; -तिः वृ ३,
९, २८, १; ६, ३, ६९^०; मना २,
३९९^०; -तिषु श्वे २, १७; अक्षि
६, ४; -सीन् वृ ३, २, १३; नाप
६, ३५; -तीनाम् नी २, २२९^०;

-तेः मना २, ४५९^०.

√घन्द्,घन्दे गौ ४, १; रापू ५, ८; व
४३३: ६; ८; ४५५: २०; ४५६:

१; १८; घन्देत् शि ७, ९२.

घन्दन्- -नम् नाप ३, ८६.

घु^१घन्दमान- -नः व ४४०: २३;
४४६: ५; ४५१: २; ४५४: ९.

घन्दि- -तः नाप ३, १९; -तम्
सार २२७: १; ४^१.

घन्ध- -न्धः गौ १, २२; त्रिवि १०^१;
कालि ४०२: २२; व २, १३;
-न्धाः तै १, ४४.

घन्धमान(न>)ना- -ना सी ३७.

घ(न्ध्य>)न्ध्या- -न्ध्या मैत्रि ७, ९;
तै ६, ९१.

घन्ध्या-कुमार-वचन- -ने तै ६,
७३.

घन्ध्या-पुत्र- -त्रः गौ ३, २८.

घन्ध्या-सुत- -तः योशि ४, १८.

√चप्^१(बधा.),>धापि, धापयेत् नाप
४, ३८; कर् १; शार २०; कृत् २, ३.

उस- -सम् इ १३: ९; शि ६, ४१.

घपन- -नम् व २; नाप ३, ७७; पत्र
३, १.

घपन्- -सा इ १३: ९.

घापयित्वा भ २, २१.

घप^{१३}- -पा निरु २, १.

घपुस्^{१४}- -पुः तै ६, ५१; ष्या ४८;
८९; ९०; पहं २; महा ३, १५;
५, ४८; ४९; १४५; १५२;
१५४; १५८; योशि २, १४;
५, २८; अत्र ५, २९; अध्या ६;
१अव २४; वरा २, ६६; -पुपः
त्रिना २, १०५; -पुपा बोचू ८७;
सु २९४: ३.

वपुर-गृह- -हे भव २, २१.

√चम्^१(बधा.) -
१वमन्^१-

चमना(न-अ)स- -सम् नाप ५,
१^१; १संन्या २, १३; पप ४१८: ३.

घ) चतुर्विधवा^१ इति अख्या. । ब) वैप १ यद्र. । c) ऋ १, ९०, c । d) 'घनस्पतीन्' इति मा १३, ७ ।

e) तैशा ३, ७, १४, ५ । f) ऋ १, २४, ११ । g) 'घन्धः' इति ध्यान. । h) व्यु. ? = प्रसवदहित- । i) = शरीर- ।
वैप १ यद्र. । j) भाप. = उद्गरण- ।

घमना(न-आ)हार-
 घमनाहार-वत् मैत्रे २, १८.
 रघमन- -नम् इ १५: १८.
 वयम् अस्मद्-द्र.
 श्वयस्- -यः नाप ४, २; व ४६६:
 १४९०; -यसा शां १, ७, १३;
 -यसि छां ३, १६, २; ४; ६.
 वय-स्थैर्य- -र्यम् कामे १७.
 वय-स्थैर्य-कर- -रः पो १८.
 वयो-गत- -तः ऐ ४, ४.
 वयो-वृद्ध- -द्वाः मैत्रे २, २४.
 रघयस्- -यांसि प्र ४, ७; मुं २, १,
 ७; छां २, ९, ४; २१, १; ७, २, १;
 ७-८, १; १०, १; वृ १, ४, १६;
 ३, ९, २५.
 वयुन- -सुंनानि ई १८; वृ ५, १५, १.
 वयुन-प्र(द>)दा- -दाम तुल ७०: ७
 वयु(न>)ना-विद्- -विष् श्वे २,
 ४९६.
 श्वर- √वृ (वरणे) द्र.
 रवर- √वृ (आच्छादने) द्र.
 रे-द्वर- √वृ (*वधा) द्र.
 श्वरण- √वृ (वरणे) द्र.
 रवरण- √वृ (आच्छादने) द्र.
 रेवर(ग>)णा- -णा जा २; ९१५;
 राउ ३, १; ९१५; -णायाम् जा २;
 राउ ३, १.
 वरणा(णा-आ)सी-
 वारण(स>)सी- -सी जाद ४,
 ४८; -स्याम् वृजा ७, ७; योशि
 ६, ४२; प्रा ४, १; शि ६, १८९.

वारणस्या(सी-आ)दिक- -के
 जाद ४, ५५.
 घरणीय- √वृ(वरणे) द्र.
 वरतन्तु- √वृ (*वधा.) द्र.
 वरत्र- √वृ(वरणे) द्र.
 वरत्रा- -त्राभिः आपे ७: ५.
 वर(त्रक>)त्रिका- -का छाग २५:
 २०.
 विराहृतप्रसिः-म् आपू ३.
 वराह- -हः छां ६, ९, ३; १०, २; ए
 ६; नापू ५, ६; पाद ४; हेण मना
 १, ८९०; य ५९०; सु २९३: ५.
 वराह- -हम् राउ १, ७; ३,
 १०; रापू ४, ५५.
 वाराही- -हिव ४३२:
 १८; ४५३: १०; ४५८: ११; -ही
 भा ३; व २०; कालि ४०१: १०;
 पो ४२२: १०; व ४५८: ५; दवा
 १३; सुमु १३; श्वे व ४३१: ५.
 वाराही-शक्ति- -क्तिः
 आप ३९४: ६.
 वाराह्या(ही-आ)दि-
 भेदि(न>)नी- -नि व ४३६:
 २३.
 वाराह-बीज- -जम् राउ ३, १
 वाराह-रूप-
 वाराहरूपिन्- -विणि
 वरा २, २३.
 वराह-क- -कम् सु १, १, ३८.
 वराह-बीज-युक्त- -क्तम् त्रिणि ७,
 ३७.

वराह-रूप-
 वराहरूपिन्- -पिणम् वरा १,
 १६; -पी वरा १, १; ऊद ६: १४.
 वराहा(ह-अ)वतार- -राय नापू ५, ९
 वरिष्ठ- √वृ (*वधा.) द्र.
 वरिष्ठा- मना २, ७९.
 श्वरुण- -ण व ४४०: १६; २२;
 २३९; ४४६: ४९; ६९; ४५१:
 १; २९; ४५४: ८९; ९९; -णः
 तै शां ९; १, १२, १९; छां
 १, १२, ५; वृ १, ४, ११; ३, ९,
 १६, २२; मै ४, ४, १२; मैत्रि ५,
 १; ७, ४; मना १, १२९; १३९;
 १४९; १५९; वृ २, १७९;
 सुबा ५; ६; रापू ४, ३८; ए ११;
 १२; सावि २; जाद ४, ३६; ३७;
 अह्ला ११; २; व ४४०: १५;
 १६; ४४५: २०; ४६०: १९;
 ४६१: ३९; ४६४: २०; ९;
 विद्या शां ९; वउ ४, १६; ब्रसू ४,
 २, ३; गी १०, २९; ११; ३९;
 -णम् तै ३, १-५, १; मना १,
 १२९; सुबा ९; -णस्य छां २,
 २२, १; -णाय मना १, १२९;
 त्रिणि ७, ४७; गोउ ६६; सूता
 ४, ४; णे सुबा ५; -णेन छां ३,
 ८, १; ३.
 वारुण- -णः अना ३१; -णम्
 छां २, २३, १; मैत्रि ६, १४; शि
 ५, १५; ३१; ३२; -णात् शि ५,
 १३; -णे १योत् ८९; व ४३०: १७.

a) अर्थः? = नाप. b) व्यु? = आयुस्- । c) श्र ९, ९४, ४ । d) व्यु. ? = पत्त्रिन्- । e) नाप. । वैप १
 यद्र. । f) श्र १, १८९, १ । g) श्र ५, ८१, १ । h) व्यु. ? = नदीविशेष- । i) शैफिकोऽण् प्र (द्र. पा ४, २, ७०) । ततः
 नैप्र. यनि. । j) *सीम् इति अच्चा. । k) वैप १ यद्र. । l) *र(रु) इति वे. । m) पा. ? 'पराऽमृतप्रसि-> -सि'
 इति शोधः द्र. [तु. सं. (२, २, ५) 'अपाराऽमृतवृत्तिः' इति पा.] । n) वप्र. वैप १ यद्र. । इह = स्फुर- 'अवतार-
 विशेष- , बीजावरविशेष- , तदाख्योपनिषद्विशेष- । o) तैआ १०, १, ८ । p) वरा? इति अच्चा. । q) = देवीविशेष- ।
 r) पा. ? 'सत्यो महस्वांस तपसां वरिष्ठः' इति पादः स्याद? [वैतु. तैआ. (१०, ६३, १ 'तमसोवरिष्टाव इति)] ।
 s) श्र १, २४, ११ । t) श्र १, २५, १९ । m) श्र १, ९०, ९ । v) तैआ १०, १, १२ । w) तैआ १०, १, १३ ।
 x) तैआ १०, १, १४ । y) तैआ १०, १, १५ । z) श्र १, ४०, ५ । a') श्र १०, ८३, २ । b') श्र १०, ८४, ७ ।
 c') तु. गप. ४६२६ ।

वारुणी^०-०णि व ३१: ४; १६; ४५०: २१; -णी तै ३, ६; १; व ४५८: ६; १५; १ कौल शां; -णीम् नाद ७; -ण्याम् हं ८; शि २, १८; व ४४०: १५; ४४५: २०; ४५०: २०; -ण्यै मना १, १२५^b.
 वारुण-मूर्ति- -तिना शि ५, ३२.
 वारुण-घ्नान- -नात् शि ५, १६.
 वरुण-द्वण्ड- -ण्ड व ४३५: १२.
 वरुण-दिश- -दिशम् व ४२८: १४.
 वरुण-देव- -वेन रा ४२४: ८.
 वरुण-देव(ता)>त्- -त्तः वृ ३, ९, २२
 वरुण-द्वार- -रम् व ४२७: २३.
 वरुण-मण्डल- -लम् व ४४०: १६; १७.
 वरुण-लोक- -कम् कौ १, ३; भ २, २५.
 वरुणलोक-काम- -मः भ २, २५.
 वरुणलोक-ज्ञान- -नम् शां १, ७, ५२.
 वरुणा(ण-अ)ङ्क-गुणा(ण-अ)र्ण- -र्णम् पी ४२१: ९.
 वरुणा(ण-अ)दि- -दयः भ २, २९.
 वरुणा(ण-अ)लय- -यम् शि २, १८
 २ वरुणा^०-
 वारुणि^०- -णि: तै ३, १, १.
 ३ वरु(ण)>णा^०- -णा ना १३^०; जाद ४, ७; १६; ३६.
 वारु(ण)>णा- -णा वरा ५, २४.
 वारु(ण)>णी^०- -णी शां १, ४^१;

योशि ५, २६.
 वरुथ- √वृ(आच्छादने) द.
 वरेण्य- √वृ(वरणे) द.
 १ वर्ग^०- -र्गा: २ प्र ३४: १२; -र्गौ २ प्र ३६: १; २.
 वर्गा(र्ग-अ)टक- -कम् राष्ट्र ४, ४५.
 २ वर्ग^०- √वृज् द.
 √वर्च^०
 वर्चस्^b- -व्यंसा २ संन्या १७: ५५^१.
 वर्चो-दा- -दा: मना २, ७९^१.
 वर्जयित्वा, १-२ वलित- √वृज् द.
 √वर्ण> वर्णि, वर्णयन्ति त्रिवि ६, १;
 सूता १, ७; ३, १३; वर्णयामि
 सार २३७: १; २८०: २२; वर्णय
 सार २३०: २१; २५८: ४; २८०:
 १४; २९०: ३.
 वर्णयंते यो ३, १; सार २३४:
 १७; २५३: ८; २५९: १६;
 वर्णयंते त्रिवा २, ३५^१.
 १ वर्ण^०- -र्णै: तै १, २, १; २ प्र ३४:
 ९; सूता २, १६^१; वरु ३, १;
 -र्णम् त्रिता २, २०; यो २, १८;
 १९; -र्णौ: गौष्ठ, ६०; योचुष्ठ;
 अक्ष १; -र्णान् श्वे ४, १; रार २,
 २२; राष्ट्र ४, ४५; -र्णानाम् २ प्र
 ३५: २२; -र्णेन २ प्र ३२: ९^३;
 -र्णै: त्रिवि ७, ४३; अक्ष ४.
 १ वर्ण^०-क- -का: प्रवि ६२; -कै:
 रार २, ८९.
 वर्ण-अया(य-आ)त्मक- -का:
 जाद ६, २.
 वर्ण-पद-वाक्या(क्य-अ)र्थ-
 स्वरूप- -पेण सर २, ३.
 वर्ण-प्रसाद- -दम् श्वे २, १३.
 १ वर्णवीजकाथा: ० सूता ६, ३.

वर्ण-लक्ष- -क्षम् रार २, १५;
 ३४; ४७.
 वर्ण-वाहन-कल्पना- -ना राष्ट्र
 १, ९.
 वर्णा(र्ण-अ)क्षर-पदा(२-अ)ङ्क-
 वर्णाक्षरपदाङ्क-दास(>):
 २ प्र ३५: २१.
 वर्णा(र्ण-आ)त्मक- -का: शां १, ६.
 वर्णात्मिका- -कायै व
 ४३६: ३.
 वर्णा(र्ण-आ)दि- -दिम् ग ७^०.
 वर्णा(र्ण-अ)र्थ- -र्थम् वरु ६, ३३.
 वर्णन- -नम् सार २३६: २२;
 २६०: ३.
 वर्णयितुम् मै ४, ४, ९; मैत्रि ६, ३४;
 भव ३, ३१.
 वर्णित- -त्तः यु ३, ४; त्रिवि २, ५;
 -त्तम् योशि ५, १६; नाप ८, ४;
 २ वर्ण^०- -र्णै: २ प्र ३५: ४; -र्णम् ध्या
 ९५; पं २; ८; १२; -र्णो: अना
 ३६; पं १; -र्णेन अशि ५, ९; ११;
 १२; १४; इ ९०: १६; २ प्र ३४:
 २०-२२; ३५: १.
 २ वर्ण^०-क- -कै: शि ६, १२१; १४८.
 वर्णका(क-अ)न्वित- -तै: शि ६,
 १३६.
 वर्ण-रति-प्रमोद- -दात् क १, १, २८.
 वर्णिन्- -र्णो भव २, ३४.
 ३ वर्ण^०- -र्णै: तै ५, ३८; सार २३१: ५;
 गार ४०६: १०; -र्णम् वृ १, ४,
 १३; -र्णो: वसु २; नाप ६, १४;
 शां ३, १; पाशु २, २२; सार
 २८२: १; २९०: ४; भव २, ६३;
 पित्र ६, १२; -र्णान् नाप ६, १२;
 १३; १ अ व २; -र्णानाम् वसु २;

a) =देवीविशेष-, दिग्विशेष-, विद्याविशेष-, मात्राविशेष-। b) तैश्चा १०, १, १२। c) व्यु? =अभ्य-
 विशेष-। d) व्यु? =नाडीविशेष-। e) वार^० इति ताम्नित्र-। f) सकृत् ०ख्या इति अख्या., यनि. च वरुणा वेति
 प्रख्या. संदि.। g) व्यु?। h) वैपश् यद्र-। i) शौ ७, ८७, २। j) तैश्चा १०, ६३, १। k) 'वर्णयंते' इति अख्या. यनि.
 शोध: द. (द्र. निसा.)। l) =अक्षर-। m) द्र. गप. वृ ९, ६। n) पा?। o) ०दीन्, ०णान् इति अख्या. संदि.।
 p) व्यु? =शुक्रादि-। q) व्यु? =ब्राह्मणादि-।

नाप ५, ८; शि ३, १०; -णैत
सार २५६; १९; २८२; २१;
-णैपु १संन्या१, १; ५५११९; ७;
कशु १, १.
घर्ण-भाञ्- -भाक् भव २, ६४.
घर्ण-संकर- -र: गी १, ४१.
घर्ण-संकर-कारक- -कै:गी १, ४३.
घर्ण-संज्ञा-कर- -रा: भव २, ६४.
घर्ण-हीन- -न: भव ५, ३३.
घर्णा(णो-आ)दि-धर्म- -मम् मैत्रे
१, ४, १३.
घर्णा(णो-आ)न्तर- -र: सार २७९;
११.
घर्णा(णो-आ)धर्म^०- -मम् मैत्रे १,
४, १४; -मैपु भव २, ६२.
घर्णाधर्म-धर्म- -मो: सार
२७८; ६; -मोन् सार २३६; २;
घर्णाधर्म-धर्म-कर्म-संकल्प-
-रूप: लि ३८.
घर्णाधर्म-धर्म-क्रम- -मम् पप
४१७; २.
घर्णाधर्म-विद्यमित- -त: नाप
४, ३६; -तम् वरा २, १३^०.
घर्णाधर्म-समन्वित- -ताम् मवि
२२.
घर्णाधर्म-स्व-धर्म- -मो: सार
२७६; ११.
घर्णाधर्मा(म-आ)चार- -र:
नाप ६, १२.
घर्णाधर्माचार-सुव- -ता:
मैत्रे १, ४, १३.
घर्णाधर्माचार-विशेष- -पा:
पत्र २.
घर्णाधर्मा(म-आ)दि- -द्वय:

नाप ६, १०; -दीनाम् भव २, ६७.
घर्णाधर्मिन्- -मिणाम् पत्र २.
घर्णाधर्मो(म-उ)धित-धर्म-
-मो: सार २३१; १५.
ध्रुवर्ण^०-
घर्ण-देव- -वाय वृजा ३, १३.
घर्णक- ✓/वर्ण द.
दघर्णक- , घर्णिन्- २वर्ण- द.
घर्णयः^० मैत्रे १, ४, १.
घर्तन- , घर्तनी- , घर्तमान- , घर्तयत्- ,
घर्तिन्यमाण- , घर्तुल- , घर्तन्-
✓/हर द.
घर्तन- , घर्तमान- , घर्तयित्वा
✓/वृष्ट द.
घर्तन्- -मंगा शि ६, १३५^०.
घर्तो(र्षो-आ)ख-नति-संयुक्त-
-क्तम् रापु ४, ४९.
ध्रुवर्ण^०- -पाणाम् वृजा ६, १; शि ६, ४;
६; -पाणिं वृ ४, १०, १; ८, ७,
३; १, ३; १०, ४; ११, ३; शि
४; ३४; आग्र १.
घर्ण-कोटि- -दिम् शि ६, २८; ५३;
६२; १०२; २३३; २३५; २५३;
-ती: शि ६, ५५.
घर्ण-कोटि-द्वय- -यम् शि ४, ३५;
६, ८७.
घर्ण-कोट्य(टि-आ)एक- -कम् शि
६, ५४; २४४.
घर्ण-गण- -णम् वृ ४, ४, ५.
घर्ण-ग्रथ- -यम् यो २, ४२; -येण
यो २, ३५^०.
घर्ण-लक्ष- -क्षम् शि ६, ५; ७;
११; १८; २६^०; ५१; २३३;
२३६-२३८; २४६; -आणि शि

६, ४८; २४२; -साञ् शि ४,
४४.
घर्णलक्ष-कल-प्रद- -दा: शि
४, ४६.
घर्ण-लक्ष-चतुष्टय- -यम् शि ६,
२४०.
घर्ण-क्षत- -तम् वृ ३, १६, ७;
जाद ६, २३; ६१०; ८; १९;
१९; -ते वृजा ६, २.
घर्ण-सहस्र- -साणि वृ ३, ८, १०;
पै ४, १५; महा २, ७६.
घर्णसहस्रा(ल-आ)सुस- -सु: पै
४, १६.
दघर्ण^०- -मै नाद १२१^०.
दघर्ण^०- , वयो- ✓/वृष्ट द.
घर्णयस्- -पात: छाग २४; ६; ७.
✓/घल्^०(वधा.) > बलि, बलन्ति महा
५, ७८.
*बल्^०-
बल्-क^०-
बल्क-ल^०- -लम् १संन्या१,
१; कशु १, १.
बलय^०- -यम् नृप ८४: ११; १४;
१८; ८५; १; -या: सार २८१;
२०; -यानि वृष ८४: १०; १२;
१४; १७; १८; २१; ८५; १; ५;
सार २४४; २०.
बलि, ली^०- -लि: वरा ६, ४; -लरी
१थोत १२५.
बली-पलित-वासा- -वा: थो २,
२४.
घ(◊घ^०)खग^०-
बलग-द्वन्- -द्वन्: गू १, ४; ६; ७.
✓/घल्, बलन्ति सु २, २, ४०^०;

a) समाहारि द्वय. । b) ०मविलक्षणम् इति शब्दा. । c) व्यु इ = १वहण- । d) पा.३ 'भवं' भगवो तु, भ्रातृवर्षत इति' इत्येकवाक्यतया शोधः द. (वैत. उत्र.) । e) वैपरी यद. । f) १=हुं, २=ष्ट, ३=१नमम्- । g) व्यु. इ = संवत्सर- । h) ०दिकमेण इति निवा. संदि. । i) ०द्विकम् इति पा.१ यनि. शोधः द. । j) व्यु. इ = भारतवर्ष- । k) हु. गद. वृ४१०८ । l) 'बहगन्वि' इति शब्दा. । m) धा. संवरण वृतिः । n) धा. श्रयः इति गिजन्ताय् दा: प्र. उत्तं. [पा ३, १, १३८ (वैत. पाध्याय. <बलि- इति)] । o) धा. श्रयः इ । p) प्रादेशिष्योच्चारण-भेदमात्रत्वेन निर्देशः । q) 'बलन्ति' इति J.C.

वलात्-

वलात्-वृष्णा-गृहा(ह-अ)-

ङ्गण-गम् महा ३,२९.

व(ल्गु)>वल्मीक-

वल्मीक-कात् वस् १३; -के वृ ४,४,७; वरा २, ६७.

वाल्मीक^{१)}-कः वस् १३.

वल्मीक-साडन-नात् वरा २, ४०.

√वल्ह

व(ल्ह)>ह्री-ह्री रह २२;

-ह्रीनाम् सार २८४:१२; -व्ययः सार २६७:१४.

वल्हभ,भा^{२)}-भः सार २२६:११;

-भम् सार २२९:१८; -भा

सार २७१:६; २७८:४; -भाय

रार २,८६; गोपू ११^{३)}.

वल्हभ-ता-तया सार २८५:६.

वल्ह(व^{४)})वी-

वल्हवी-वदना(न-अ)भोज-

माला-

वल्हवीवदनाभोजमालिन्-

-लिने गोपू ४०^{४)}.

√वश(वधा.)>वशित,उशन्ति

मैत्रि २,७; वष्टु सर २,३९^{५)}.

वशय-वशय लां २१५:२२.

उशत्-शक् १,१,१; ण ६,७.

उशती-ती सर २,२९^{६)}; १९^{७)};

-ती: मना १,१२९^{८)}; त्रि ३;

-वीम् लि ३११:१०^{९)}.

उशन्ती-न्तीम्^{१०)} पा ६,७.

वश-शः ऐ ५,२; महा ३,१९^{११)};

योशि १,६१; अञ्ज १,३७; -शम्

क १,२,६; महा ४,३; काम ९;

व ४२९:८; १३; १७; २२;

४३०:५; १०; ४३५:५; ४५९:

३; ४६०:१८^{१२)}; गी ३,२४; ६;

२६; -शात् महा ५,३०; वरा ४,

६; गी ९,८; -शानि पाशु १,३;

६; -शो प्र २,१३; शि ७, ६७;

गी २, ६१.

वश-काम>मा^{१)}-मा सार

२६३:२.

वश-न-ने महा ४,३.

वश-वर्ति(व>)नी-नीम् रा

४२४:२३.

वशा(श-अ)भुग-भा: मन्त्रि ६;

चू ६; -गा: मना २,६४^{१३)}.

वशिन्-शी क २,३, १२; वृ

४,४, २२; श्वे ३,१८; ६, १२;

मना १,९९^{१४)}; १४^{१५)}; २,५५^{१६)};

शां १,७,१; शा ३०; आर्य ९:

१३; जाद ६,८; गोपू १९; व

४६०:१८^{१७)}; ४६४:१९^{१८)}; गी

५,१३.

वशिनी^{१९)}-नी आथ

३९८:६; गु ७०.

वशिन्या(नी-आ)दि-

शक्ति-क्तयः भा २२.

वशिन्या(नी-आ)य-

(दि-आ)ष्टक-कम् आथ

३९८:४.

वशित-व-

वशित्व-सिद्धि^{२०)}-द्वि:

आथ ३९३:६; ३९७:१३.

वशी/कृ,वशीकरोति त्रिता ३,

२२; २४; वशीकुरु-वशीकुरु

दत्ता २; व ४५६:१०.

वशी-करण-

वशीकरण-वाण-णाय

व ४५७:३.

वशी-कार--रः योस् १,४०.

वशीकार-संज्ञा-ज्ञा

योस् १,१५.

वशी-कृत्य नाप ६,१^{२)}.

वश्य,श्या-शयः योचू ११८:

शां १,७, ६; भा २३; -शयम्

योरा ११; व ४५७:६; -श्या:

रा ४२४:१७; -श्यानि क १,

३,६; -श्याम् वृ ४,५; -श्याय

वपू २,५.

वश्य-कर--०२ अक्ष ५.

वश्य-ता-ता योस् २,५५.

वश्य-मा(या)>य-

वश्यमाय-स्व-स्वम् सर

३,१५.

वश्या(श्य-आ)स्मन्-स्मना

गी ६,३६.

वश्या(श्य-आ)दि-

वश्यादि-क-कम् त्रिवि

७,४८.

२व(श्य)>श्या^{२१)}-श्या पी ४२२:८.

वपद्^{२२)} वपू २,४; शु १,१८^{२३)}; २,५^{२४)};

ए ५; दत्ता २; गढ ३; लां २१३:

८; वपू २, २.

वपद्-कार-रः वृ ५, ८, १; मना

२,६८^{२५)}; कश १^{२६)}; प्रा १,६९^{२७)}; कष्ट

२,२^{२८)}; -रम् वृ ५,८,१; रार ३,

१; रापू ४,५२.

√वस्(निवासे)>वासि,वसते त्रिवि

१९^{२९)}; वसति क १,१,८; वृ ५,

१०,१; त्रिवि २०; २२; कौ ३,२;

वा २७; योशि १,१३७; ६,६९^{३०)};

त्रिता ४,२२; वरा ५,२३; पिं १^{३१)};

पा ९,२; भव २,२१; अवि २०;

a) व्यु. ? =जन्तुविशेष-। b) =श्रेयविशेष-। c) व्यु. ?। d) *भ इति निसा.। e) व्यु. ? =गोप-। f) *वीनय^{३)} इति आन.। g) श्र १,३,१०। h) श्र ५,४३,११। i) श्र १०,७१,४। j) श्र १०,९,२। k) *शन्ती इति पा. ? वनि. शोयः द.। l) =आकोशन्तीम् (तु. पाटी.)। m) 'यशाः' इति अच्चा. संटि.। n) श्र १०,८४,३। o) तैआश्वा १०,६४। p) श्र १०,१५२,२। q) श्र १०,१९०,२। r) =देवीविशेष-, शक्तिविशेष-। s) स्वव^{४)} इति अच्चा.। t) व्यु. ? =देवीविशेष-। u) अश्व. वैप १ यद.। v) तैआ १०,३१,१। w) 'वहते' इति अच्चा. संटि.। x) *ते इति अच्चा.।

२२; वसतः कौ३, ३; वसन्ति
 वृ६, २, १५; प्रि७; भव२, ५४;
 वसामि सार२७८: ३; वसन्तु
 छां५, ११, ५; वस छां५, ३, ७;
 ६, १, १; ८, ९, ३; १०, ४; ११, ३;
 सार२७८: ४; हंपो५; भवसत्
 महा२, २३; भवसत् पि३, ५;
 भवसाम वृ३, ७, १; वसेत् कौ
 २, १५; मैत्रे१, ४, १४; २, ३;
 ११; ते४, ३१; सुवा१३; ध्या
 ८८; नाप३, १२; २१; २५; २६;
 २७; ४, १४; १५; २०; ५, १; ३;
 २४; ६, १; २६; ७; रक१२;
 योशि६, ६९; १संन्या१, १; २,
 ६३; अध्या२५; कुं२८; यो
 २, १७; शा६; २०; २१; २८;
 तुल७१: २; पा८, ८; शि४,
 ३५; ६, ६४; १०२; २११; २७०;
 २७३; ७, ८६; कथु१, १; वसेयु:
 सि६.
 उवास छां१, १०, १; ४, २, ५;
 १०, १; ८, ९, ३; १०, ४; ११, ३;
 वृ६, २, ७, ८; ऊपठ: छा८, ७,
 ३; ऊपु: वृ५, २, १; वाग२४:
 १७; वासवथ छांग२४: १७;
 वस्वामि छां४, ४, ३; वस्वाव:
 वृ६; २, ४; भवास्ती: क१, १,
 ९; भवास्त्व छां८, ७, ३; ६;
 भवात् छांग२४: १८.
 वासयते वृ१, ४, १६; वासयति
 वृ५, २, ८; ६; वासयन्ति छां३,
 १६, १; वासयति अत्र१५.
 उपित- -त्: नाप१४; -त्तानि
 नि६१, १६.
 उपित्वा छां५, १०, ५; वृ५, २, १;
 सुवा१; गो४१; गो६, ४१.

पसव्-सम् पा३, ३; -सन्त: आप्र
 ३; ४; -सन्तम् छां४, ३, ९; म
 २, २९.
 पसति, ती- -तिम् वृ६, २, ३; -ती
 ते३, १०, १; -त्या वृ६, २, ३.
 पसती-च(रु>)ती^{१०}- -री: शो
 ५२: १४.
 वास- -स: निर्वा२९८: ३; वरा
 २, ३९; पा७, ७; व२८; गो१,
 ४४; -सम् सार२८९: १०.
 वासग- -नाय नाप६, ८; ना२१, ९
 वासस-
 वासो-वृक्ष- -क्षम् प्र४, ७.
 वासित- -त्तम् ना२१, ९.
 वासित्- -सिने द११.
 वास्तु^{१०}-
 वास्तु-विद्या-विविमित- -त्तम्
 शि४, २१.
 वास्तु-वेद^{१०}- -द: सी३०.
 √वस्(शाच्छादने)
 वसन^{१०}- -त्तम् वृजा३, ३३; ४, १;
 -नेन छां८, ८, ५.
 वसना(न-अ)न्त- -न्तेन कौ२,
 १५.
 वसान- -ना: व४६६: १५.
 वसा^{१०}- -क्षम् नाप३, ८६; ४, ३८;
 ५, १; ७; १संन्या२, ६; ७; ९;
 १७४८: २३; आ३२; सि६,
 २७८; ७, १२; ५०; कथु१, १;
 -खाणि सार२२३: ११; २८४:
 ६; २८७: ३; सि६, १७७-खेण
 यो२, २२; -खै: सार२३३: १७.
 वस-वन्तु- -न्तुनाम् शि६,
 २५७.
 वस-पर्णा(र्ण-आ)दि-
 कल्पित- -त्तम् शि६, २७२.

वस-वृत्- -त्तम् शि६, २६; भव
 ५, १०.
 वस-व(रु>)वी^{१०}- -त्या सार
 २२३: ११.
 वस-वाय(प्य-आ)सन्^{१०}-
 -त्तम् शि७, २७.
 वस-सुगन्ध-भेद- (रु>)-
 शा^{१०}- -शा सार२६३: ८.
 वस-सुधा(त्रि-आ)व- -त्तै: शि
 ६, २७४.
 वसा(त्रि-आ)दि- -वीनाम्
 १संन्या२, १५.
 वसा(त्रि-आ)भरण(ण-आ, सु-
 (दि-उ)पचार- -रै: त्रिवि५,
 १२.
 वसा(त्रि-अ)लंकरण- -णै: सार
 २३०: ११; २५४: ४.
 वसा(त्रि-अ)लंकार-भूषण- -णै:
 सार२४३: १.
 वसा(त्रि-अ)लंकार-महानाङ्ग-
 माला- -लया ता८४: ५.
 वसा(त्रि-अ)लंकार-संबुक्त-
 -का: सार२३७: १९.
 वासव^{१०}- -सस: छां५, २, २; वृ
 २, ३, ६; ६, १, १४; म२, २; शा
 ७, -ससा कौ२, १५; सोसि तै१,
 ४, २; व४६६: ११; सि७,
 ५०; भव२, ३८; गो२, २२.
 वासो-ह(रु>)त्वा- -त्वा:
 कौ१, ४.
 वास्य- -त्तम् वृ१.
 √वस्(गन्धे) वासि, वासयति सार
 २२२: १५; वासयति लु१९.
 वासित- -त्तम् १योत३४.
 वासित(त-अ)व(रु>)रा- -रा
 महा४, १०८.

1. a) 'वसेत्' इति अच्चा. b) 'भवेत्' इति अच्चा. संदि. c) 'वसेत्' इति अच्चा. d) सकृत् 'व
 इति आन., 'भवात्तम्', 'वास्य इति BCH. e) 'वासि' इत्यपि निसा. पाठे. f) 'ओपितः' इति आन., j. c. l
 g) 'न्तः' इति अच्चा. संदि. h) वैपरी यद. i) 'नात्तु' इति अच्चा., 'वन्तुवा, 'न्तुनवा चेति अच्चा. संदि. l
 j) वृ २, ५४, ४ k) समाहारे द्र. l. j) तैषा ७, ४, २. m) 'वासयित्' इति आन., 'पश्यति' इति अच्चा. l

√वस्(वधा.)>वासि
 वसन्त^{1a}- न्तः छां २,५,१;१६,
 १; मैत्रि ६, ३३; ७, १; सार
 २२९ : १; ३; ४; ११; न्तम्
 २प्र ३२ : ११; सार २२९ : ३;
 न्तस्य सार २२९ : १५; न्ते
 कृ १; सार २६७ : १४; कथु
 २,३.
 वसन्त-ऋतु- -तुः सार २२८ :
 २३.
 वसन्तऋतु-सेवित- -तानि
 राधा ३,७.
 वसन्त-काल- -लम् सुद्र २.
 वसन्त-नव-रात्रि- - -त्रिषु रा
 ४२५ : ३.
 वसन्त-रङ्ग-भोग- -मान् सार
 २२९ : २०.
 वसन्त(ना-श्र)तुं-सेवित-
 रूप- -भाम्याम् सार २४८:१.
 वसन्त-लीला- -लायाः सार
 २३० : २.
 वसन्त-सुख- -खानि सार
 २२९ : ७.
 वसन्त-स्थान- -नम् सार २२८ :
 १४; २२९ : १७; -ने सार २२९ :
 १७.
 वसन्तो(न्त-उ)द्भव- -वानि सार
 २२८ : १७; -वैः सार २२९ :
 ७; १२.
 २वसन्त^b-
 वसन्त-पुष्प- -श्वैः रा
 ४२४ : १२.

१;१६,१;१६;२; वृ २,४,१२;
 ३,९, २,३३; मैत्रि ७,१; ना १;
 मना १, १४१; २, ६०१; अ
 १; वृजा ४,१६; ६,१२; वृषू २,
 २; ४,१५,१७; ५,८; वृष ३,२;
 मुया ६; ते ५, १०४; त्रिवि २,
 १६; राज ४,३२; दे १०; गोउ
 २३; २६; ६२; शौ ५२; ४; ११;
 नापू ५,२५; सार २५१ : ४; ५;
 १०; २५२ : १३; गी ११,२२; -सु
 वृष,४,२४; मना २,४११; ते २,
 ३७; -सुः क२, २, ३१; मना २,
 १२, २१; २, ४०१; ७११; वृषू
 ३, ६१; नापू ५, ११; ए७१; त्रिता
 ४, २६; वपू १, ६; २, ३१;
 -सुना मै ३, ४१; मैत्रि ३, ४;
 -सुनि पा १०, १; -सुभिः वृजा ४,
 १५; दे ११; सार २५२ : ९;
 त्रिषि ३८२ : १९; -सुम्यः वृजा
 ४, २९; -सुम् पा १०, १; -सुषु
 गोउ ६३; -सून् रापू ४, ५१;
 अव्य ५; शौ ५१ : २; गी-११,
 ६; -सूनाम् छां २, २४, १; ३, ६,
 ३; ४; १६, ९; दे ३१; सार
 २५२ : १०; वपू १, १; ४; गी १०,
 २३; -सूनि नाप ४, ३८; इ
 १९ : २१; व ४६० : ४१; -सो
 मना २, ७१; -सोः मैत्रि ६, ९;
 २प्र ३३ : १८.

२; १२; १२; वृ ६, १, २; ७;
 १४; -ष्टम् छां ५, १, २; -छा
 वृ ६, १, २; १४; -छाम् वृ ६, १,
 २; -छाय छां ५, २, ५; -छायै वृ
 ६, ३, २.
 २घसिष्ट¹- -छः वृ २, २, ४;
 मना २, २८; वपू १४; सार २,
 ४१; आपि ९ : ३; वृ २; गार
 ४०५ : ३; -ष्टेन अल १५.
 वासिष्ट- -ष्टम् गार
 ४०७ : १०.
 वसिष्ट-कश्यप- -वौ वृ २,
 २, ४.
 वसिष्ट-वंश-ज- -जस्य
 वृजा ६, १.
 वसिष्ट-वामदेवा(व-आ)-
 दि-मुनि- -निभिः रापू ४, ३९.
 वसिष्ट-बालखिल्य-विष्वा-
 मित्र-कश्यपा(प-अ)त्रि-भरद्वा-
 जा(ज-आ)क्रिरस-जा(१ज)मन्मि-
 गीतमा(म-अ)गस्त्य-जाबालि-
 कपिल- -लाः नापू ६, ८.
 वसिष्ट-वैयासकि-वामदेव-
 विरिञ्चि-मुख्य- -ख्यैः श १९.
 घसिष्टा(ष्ट-आ)दि- -दि रा
 ३, १.
 वसिष्टा(ष्ट-आ)व- -वैः रापू
 ५, ७; सु १, १, २.
 वसीयस्¹- -वासम् अव्य ४;
 -यान् अव्य ६; आपि ८ : ५; १८;
 २१; ९ : ७; ९.
 वसु-दल- -लम्, -ले वपू २, ४.
 वसु-दान- -नः वृ ४, ४, २४.

वासव- -वः नाउ ३, ३; गी
 १०, २२; -वम् छां २, २४, ३.
 वसव- -व्यम् शौ ५२ : ४.
 १वसिष्ट, छा¹- -छः छां ५, १,

a) धा. अर्थः! = ऋतुविशेष-। b) धा. अर्थः! = वसन्तकाल-। c) धा. अर्थः! = देवताविशेष-, धन-। d) तैआ १०, १, १४। e) ऋ १०, ३७, १२। f) तैआ १०, ३९, १। g) ऋ ४, ४०, ५। h) सुरगवः इति पा.। (तु. तैआ १०, ६३, १) यनि. क 'अण्व->ण्वः' (परि.) इति च शोचः द्र.। i) 'विशुः' इति अच्चा. संटि.। j) 'अवसन्नेति' इति निसा., अच्चा. 'वसुना इति' इति द्विपदः शोचः द्र.। k) ऋ १०, १२५, १। l) ऋ १०, १२५, ३। m) तैआ २, ५, ८, ८। n) ऋ १०, ८३, ३। o) तैआ १०, ५, १। p) = विप.। वैप१ यद.। q) सकृत् पा.१ 'छा इति शोचः द्र. (तु. वृ ६, १, ३; १४)। r) वैतु. शं. पक्षे <√वस् (आच्छादने)। s) = गोत्रप्रवर्तक-ऋषिविशेष-। वैप१ यद.। t) तैआ १०, २१, १। u) वैप१ यद.। v) उप. कर्त्तरि <√दा(दाने)।

वसु-देव- -वः कृ ६.
 वासुदेव- -व त्रिवि०,
 ४०; नापू ३, १९; नाउ १, १०; -वः
 वृजा ६, ९; ते ५, ६७; ६, ६९;
 ऋषि १०३; वा २; ४२; मुद्र २;
 अक्षि ४६; त्रिता ४, २२९^{१५};
 गोपू ३२; वरा २, ३७; गोच ६५;
 ३; सं १३; भव २, ५४; अवि
 २२; गी ७, १९; १०, ३७; ११,
 ५०; वृपू ५, ८; व्या २८; त्रिमा
 २, १००; १४४; १४८; वा १;
 शा ४; सु १, १, ३५^{१०}; गोच
 ६५; १; -वस्य त्रिमा २, १४७;
 त्रिता ४; २४; नाउ १, ९; भव
 १, ३५; २, ५१; गी १८, ७४;
 -वाव सं २; -वाय मना १, ६९^७;
 सु २, ५; त्रिवि ७, ३४; ३९^९;
 ४१^९; ४६; ४८; रापू ४, ४७; राउ
 ४, ४४; त्रिता ४, २३; ऊ ६३;
 १२^९; नापू ३, ९९^७; ८९^७; १२;
 ४, २९^७; व ४६३; ४९^७; -वे
 योशि ५, ५४.
 वासुदेव-द्वादशा-
 (श-अ)क्षर- -रः राउ ३, १०.
 वासुदेव-संकर्यण-
 प्रयुक्ता(न-अ)निरुद्ध- -द्वेभ्यः
 शु २, ५.
 वासुदेवा(व-आ)-
 ऋय- -व्यम् नाप ३, २०.
 वासुदेवा(व-आ)दि-
 -दि राउ ३, १; -दिभिः सौ १, ३१.
 वासुदेवादि-
 चतुर-भ्युह- -सेवित- -तम् वपू
 १, ६.
 वासुदेवा(व-आ)घ-
 -घैः रापू ४, ३५.

वसुदेव-सघन- -अग्नि गोच
 ६९; १६.
 वसु-धा- -धा त्रिमा २, १३५;
 महा ६; ७१; तुल ७०: २.
 वसुधा-तक- -लम् नाप ४,
 १९; महा २, २०.
 वसुधा-पीठ- -ठे अक्ष ३, २.
 वसु-धान- -नः छां ३, १५, १.
 वसु-नामन्- -ना सार २५१: ५.
 वसु-ध(र)>रा- -रा सौ १७;
 क १४; -राम् वृपू १, ३; वपू
 १, ६; --रे मना १, ८९^९; ऊ ६३;
 ७१^९; व ४६४: २१^९.
 वसु-भद्र,दा- -दः राउ २, ३०;
 -दा सौ १, ३.
 वसु-रुद्रा(द-आ)दित्य- -स्यैः वृपू
 १, ३; वपू १, ६.
 वसुरुद्रादित्य-रूप,पा- -पा
 गार ४०७: ३; -पान् नाप ४, ३८.
 वसु-विद्- -वित वृ ६, ४; २७^५.
 वस्व(सु-आ)र्ण- -र्णैः राउ २, २०.
 वस्व(सु-आ)एक-प्रिय- -यम्
 रुजा २, १०.
 वस्वा(सु-आ)दि- -द्वयः गार
 ४०८: ८.
 वस्वा(सु-आ)दित्य-कला-पद्म-
 -प्रेपु सौ १, २.
 वस्यस- -स्यसः तै १, ४, ३.
 रवास(न)>जा- -नया मैत्रे २, २९;
 महा ६, १८; वरा ४, २०; सु २, २,
 १६; सांस् ५, ११९; -ना नाद
 ४९; महा ४, १०८; १२९; योशि
 ६, ७१; १ संख्या २, ४३; अक्ष ४,
 ४६; ५२; ७९; ८८; ५, ५, ६;
 १६; यो १, १; वरा २, ७०; सु
 २, २, ८; १७; २६; २८; ५७; ६१;

६२; -नाः महा ५, ७८; १२४;
 अक्ष ४, ६२; सु २, २, ४०; ६८;
 ६९; सार २९०: १७; -नानाम्
 अक्ष ७, १५; योम् ४, ८; -नाम्
 महा २, ४५; ६, ७; ४५; ४६;
 अक्ष १, ३१; ४, ७४; सु २, २,
 १८; २४; सार २९१: ७; २९२:
 १३; -नायाः महा २, ३९^१; अक्ष
 ५, १७.
 वासना-क्षय- -वः महा ६, ४४^३;
 अक्ष ४, ७८; ८०; ८१; अग्या
 १२; सु २, २, ६८; -यम् महा ६,
 ४४.
 वासनाक्षय-विज्ञान-मनो-
 नाश- -नाः अक्ष ४, ८३; सु
 २, २, १०.
 वासना-नाण- -णाव महा ५,
 १७५.
 वासना-जाल- -ले पै ३, १;
 अग्या ३९.
 वासना-वन्दु-बद्ध- -द्धः महा
 ५, ८६;
 वासना-तानव- -वम् महा २,
 ४१.
 वासना-वृण-पावक- -कः महा
 ४, १२.
 वासना(ना-आ)मक- -कम् सार
 २९२: १३; -केन सार २९०:
 १५.
 वासनात्मिका- -का महा ४,
 १०२.
 वासना-स्याग- -गः महा ६, ४३.
 वासना-श्रय-नाशन- -नम् मैत्रे
 २, ९^०; सु १, १, ४०.
 वासना-श्रय-पूर्वक- -कम्^०
 सुअ १२.

a) उप. कर्तरी <√धा। f) वैवृ. तैश्चा १०, १, c °रा इति। g) पा। (द्र. तैश्चा १०, १, c) यति. सोधः द.
 (तु. JC.)। h) ऋ १, १६४, ५९। i) वैप२ वद। j) धा. अर्थः! =भाप।। k) °नाम् इति निसा। l) °नायाम्
 इति निसा. यति. सोधः द. (द्र. अग्या.)। m) °यम् इति अग्या. संदि.। n) °कम् इति अग्या.। o) वा. क्वि. द.।

वासना-नाश- -नाः अक्ष३,८०.
 वासना(ना-अ)सुदप- -यः अ०धा
 ४१.
 वासना(ना-अ)र-ना(मन्)>-
 झी- -झीम् महा ४, १०२.
 वासना-प्रक्षय- -यः अ०धा १२.
 वासना-प्रण-संरोध- -धात्
 अक्ष ५, ४०.
 वासना-यद्- -द्ः सु २, २,
 ६८; सार २९, १ : ८.
 वासना-मय- -यान् सता १, ८.
 वासना-मात्र-कारण- -णम् सु
 २, २, २२.
 वासना-मात्र-संस्वाग- -गात्
 अक्ष ५, ६२.
 वासना-मुक्त- -क्तः सार
 २९, १ : ९.
 वासना(ना-अ)म्बु-परिप्लुत-
 -त्ते महा ५, १७६.
 वासना-रजनी-क्षय- -ये महा
 ४, ११७.
 वासना-रहित- -त्तेषु योशि १,
 १५५; नैः अक्ष ५, ३९.
 वासना-रूपक- -कम् पं २, ४१.
 वासना-रुच्य- -यम् अध्या १३.
 वासना-लिङ्ग-शरीर- -रे सार
 २९० : २३.
 वासना-वश- -शात् त्रिधा २,
 १७.
 वासना-वासित- -तः योशि १,
 २३.
 वासना-विलय- -ये सु २, २,
 १७.
 वासनाविलय(य-आत्मक)>
 लिप्ता- -का अक्ष ५, ८२.
 वासना-विषयी-कृत- -तः सु
 २, २, ५९.
 वासना-वृद्धि- -द्धी सु २, २, ९.

वासना-वेग-वैषिण्य- -य्यात्
 सु २, २, ६०.
 वासना(ना-आ)वेग-
 वासनावेग-तत्त(>:) सु २,
 २, २६.
 वासना-व्यूह- -हः सु २, २, ३;
 भव १, ४६.
 वासना-संपरित्याग- -गाः सु २,
 २, ४५; -गात् अक्ष ४, ८६; सु
 २, २, २८; -नो अक्ष ४, ७८.
 वासनासंपरित्याग-सम-
 -मम् अक्ष ४, ८५.
 वासना-सरिण- -रिण् सु २, २,
 ५; भव १, ४७.
 वासना-हीन- -नम् सु २, २,
 २२.
 वासने(ना-ए)पणो(णा-उ)परि
 नाप १.
 वासनी(ना-उ)दय- -यम् सु २,
 २, ८७.
 वासनी(ना-श्रो)घ- -घः सु २,
 २, ३१; -घेन सु २, २, ३.
 वास(न्त)>न्ती-
 वासन्ती-पल्लव- -वैः सार
 २६७ : १४.
 वासिन्- -तारम् महा ६, ७.
 १-२यसन्त-, घस्य-, १-२वसिष्ट-,
 वलीयस-, वसु-, वसुदेव-
 √वस्(°वधा.) द.
 वस्त- -स्तः वृ १, ४, ४.
 वस्ति- =वस्ति- गप्.
 वस्तु- -स्तु गौ ४, २२^३; ४४; वृत्
 ८, १; शु ३, ६; ते १, ४५;
 ५०; ४, १२; ६, ८८; महा २,
 ५; १३; ३, १७; ४, ८८; अक्ष ३,
 २२; वरा ३, १; व १४; सु २,
 २, ५९; अद्वै २७; नाप् ५, २७;
 वि १७; शि ६, २५५; ७, ६८;

भव १, २९; योस् ४, १६; -स्तुनः
 १आ २९; -स्तुना वि १; -स्तुनि
 पै ३, १; मदा २, १२; अक्ष ४,
 ४५; १आ १०; २८; त्रिधा १,
 ३३; सार ३, २९; -स्तुपु मये २,
 १९; अक्ष २, ८; भव १, २१;
 -स्तुनाम् अक्ष २, ४०; नाउ ३,
 ४; -स्तुनि सार २६६ : १५;
 शि ६, २७६.
 वास्तय- -यम् अक्ष १, १४.
 वास्तवी- -वी सता १, ४१.
 वस्तु-व्यपना-प्रसक्ति- -क्तः सांस्
 ५, ३०.
 वस्तु-चतुष्टय- -यम् सता १, ३६.
 वस्तु-तत्त(>:) त्रिवि १, ५; ११; २,
 १०; ७, १७; अक्ष २, ४४; १आ
 २६; पायु २, २७; ४४; सार ३,
 ३३; स्व ६० : ३.
 वस्तु-न्तय- -न्तम् योस् ४, १४.
 वस्तु-रव- -रवे सांस् १, २१.
 वस्तु-दशा(शा-आ)लम्ब- -म्बः
 अक्ष ४, ५८.
 वस्तु-दष्टि- -ष्टयः अक्ष ४, ७१; -ष्टिः
 भक्ति १८.
 वस्तु-धर्म-
 - वस्तुधर्म-स्व- -स्वात् सांस् १,
 ४४.
 वस्तु-भेद- -दम् ते ४, ४१; ६, ५४.
 वस्तु-मात्र- -त्रम् सार २६४; १३;
 २३१ : ११; २८४ : ११.
 वस्तु-लक्षण- -णम् १आ १६.
 वस्तु-विषय- -यम् शां १, ७, १६.
 वस्तु-शून्य- -न्यः योस् १, ९.
 वस्तु-सप्ता- -त्ता अक्ष ४, ६६.
 वस्तु-साम्य- -म्ये योस् ४, १५.
 वस्तु-सिद्धि- -द्धिः सांस् १, ७८.
 वस्त्व(स्तु-अ)भाव- -वम् गौ ४,
 ७९.

a) °वशतः इति निसा., अख्या. संटि. । b) °यः इति अख्या. संटि. । c) व्यु. इ-लगात्- । d) वैपश् चट्ट. ।
 e) भाप. (वैतु. विप. इतीव कृष्या °म्वा इति अख्या. संटि.) । f) =वास्तविक- (वैतु. उत्र. स. अभावे सति वा.) ।

वस्त्रा(स्तु-आ)भास-स्मृ गो ४,

४५.

वस्यस्-√वस्(वधा.) द. ५.

√वह्(वधा.)>वाहि, वहते भक्षा
२^५; गुडे; पा १०,२; वहन्ति
सुं १,२,६; वहसि वृ ५, १४, ८;
गा२६; वहामि बा१६; २१; गो
९, २, २; वहि मना २, १२, २९^५;
वह^० पा ९, ६; भवह्व वृ १, १,
२; वहम् वा १३; वहैव शां १,
७, ४९; रुजा १, १५; १६.

वहिन्यसे पा २, ३; ८.

उहामान-नः मै ३, २^५; मैत्रि ३,
३; ६, ३०.

वहव-हवा पा १, ५^०; -हति यो
१, १०; -हन्तः सु २९३: १८९^१.

वहन्ती-न्ती सु २, २, ५; भव
१, ४७; न्त्या पा १, ५.

वहमान-नः पा २, ९.

वह्नि-ह्निः मै ४, ४, १; मैत्रि ६,
३४; मैत्रि १, ४, ३; कै२, ४; वृजा
१, १; ते ४, १७; घ्या २७; ववि
६९; १योत ९२; त्रिधा १, ५;
२, १६३; २अव ३३८: ४; रार
२, ६^५; राष्ट्र, ३८; ५८^५; वा२८;
शां १, ४; योशि १, ८५; १४७;
१७०; १७७; ५, ६; १४; ३१^१;
३२; यो १, ६५; रुह २१; जाद
६, ४२; वरा ५, ४७; ५१; व
४६६; १९; गो ३, ३८; -ह्निना
१योत ९४; त्रिधा २, ५५; राष्ट्र
४, ५; योशि १, ८६; यो १, ६४;
जाद ६, ४२; सुता २, १५; -ह्निम्
वृजा ३, २०; पै ३, १; योशि १,

७४; यो २, १७^५; म १, ३;
वरा ५, ३७; पो ११; ह्नेः श्वे १,
१३; मैत्रि ६, २६; ३१; योच्
१०; रार २, ४०; महा ४, ९९;
अक्ष ५, १७; जाद ५, ११; गुषो
४२०: १२; सांस् १, ६०; -ह्नी
१योत ९२; पै ३, १; वरा ५,
४७; पारा १५; शि ४, ४७;
५१; ५४; ७, ६९.

वह्नि-कणा(ण-आ)कार-रम्
महा ५, १५२.

वह्नि-कला-लाः भा २०^१.

वह्नि-कुण्ड-ण्डम् योरा ६.

वह्नि-जाया^१-याम् २७; १३;

रार २, ६५; ६९; ६९.

वह्निजाया(या-आ)न्त-

-न्तम् रार २, ५४.

वह्नि-जवाला(ला-आ)वली-

वह्निजवालावली-वत् अता७

वह्नि-राम-मः प्र २, ८.

वह्नि-रुप-र(ग>)गा^१-गा

रार २, २६^१.

वह्नि-शय-यम् तिसि ३८१:

१९.

वह्नि-दैवत-ते शि ६, ७९.

वह्नि-बीज-जम् जाद ५, ९.

वह्नि-मण्डल-ले यो १, ४३.

वह्नि-मव-माम् गा २७^१।

वह्नि-मध्य-म(त>)ता-ता

घ्या २७; व ४६६: १९.

वह्नि-मय-यः पारा १५.

वह्नि-युक्त-क्तेन योशि ३, ९.

वह्नि-योग-गेन घ्या ६६;

योच् ३८.

वह्नि-वचन-नः रार ५, १.
वह्नि-वत् ऋवि २१^१; अवि
२१; सांस् ५, १२७.

वह्नि-वासि(र>)नी-नि
व ४३६: ३; न्यै वषं ३१२: ३.

वह्नि-शिखा-स्त्रा मना२, १३,
२९^०; महा १, १९^०; वा २१९^०;
च २१: ४; गोच ६६: २३.

वह्निशिखा-मण्डल-लम्

मं २, १, १०.

वह्नि-संयुक्त-क्तम् य २; सु
२९३: २.

वह्नि-संयुक्त-वादि-रिणा

शां १, ४.

वह्नि-साराधि-धिम् त्रि ९.

वह्नि-सुन्दरी^१-री रार २, ४८.

वह्नि-सोम-कला(ला-आ)-

धक-क्तम् रार ५, ८.

वह्नि-स्त्रीपथ-सेवन-नम्

१योत ४७^१.

वह्नि-स्थ-स्थम् रार २, १^५.

वह्नि-स्थान-नम् १योत ९१.

वह्नि-श्र-श्रान-नौ यो १,

४४.

वह्नि-श्र-श्रान-नात् महा

३, २०.

वह्नि-श्र-श्रान-स्मन-रार

२, २^५.

वाह-हम् श्वे २, ९; भव ३, २६;

-हाः क १, १, २६.

वाहन-

वाहन-मण्डप-पम् ति ४, ४.

वाहिन-दिने अत्रि १^१.

?वहन्ताम्^१ पा ८, ३.

a) अर्थः?। b) अत्र २, ३, ११। c) वैतु. पाटी. √वह्>वहते इति। d) 'हन्मानः' इति निसा. यनि.
शोधः द. (उ. मैत्रि ३, २)। e) ०तः = ०ते इति पाटी?। f) अत्र ९, ८३, १। g) धा. अर्थः?। वैप१ यद. इह = अग्नि-
तदधिष्ठात्-देवता-, बीजाक्षर-प्रथ.। h) =रेक-बीजाक्षर-। i) ०ह्निः इति अत्रान.। j) 'घनवलाः' इति ऋजा.।
k) =स्वाहा। l) 'गम्' इति अज्या. संटि.। m) पा! 'बहु इव' इति द्विपदः शोधः द. (उ. वृ ५, १४, ८)। n) उप.
कर्तार कृत्.। o) 'वह्निम्, अत.' इति निसा., अत्रान. यनि. शोधः द. (उ. नाज.)। p) तैआ १०, ११, २। q) ०पथि^०
इति अज्या. यनि. शोधः द. (उ. निसा.)। r) ०ह्नि इति निसा., ०ह्नि इति ऋजा. च यनि. शोधः द.। b) पा!।

वा^१ क १, १, १५^१; सुं १, २, १०^१; मां
९-११; तै १, ११, ३^१; ऐ ५, १^१;
छां ३, १४, ३^१; वृ ३, ८, २^१; ये
२, १४; कौ १, २^१.

√वा(“वधा.”) वाति मना २, ११^१;
वृजा ८, ६; वृपू ५, २०; सुधा ६;
अव्य २; वज ५, २८; पित्र ४, ७;
वाप्ति अत्र ४, ३०; रूह ४०;
घातु व ४३७ : १७^१; वान्तु
महा ४, ९७.

घात- -तः तै २, ८, १; वृ १, १, १;
वृपू २, १४^१; म २, १०^१; व
४३७ : १७^१; वज ४, ४; पित्र
४, ७; -तम् वृ ३, २, १३; मना
२, ४७^१; -ताः वृ ६, ३, ६९^१;
मना २, ३९^१; अत्र ४, ३०; यो
१, ७६; रूह ४०; -ताव वौ २, ४;
-ते योचू ८९; -तेन महा ४, १६.

घात-ज- -जाः जाद ६, ३०.

घात-दोष- -पम् यो १, २५.

घात-नाद्यो- -गत-सर्व-योग-

विनाशन- -नम् शां १, ७, १४^१.

घात-पित्त-श्लेष्म-महाध्याधि-

प्रकोप- -पः ध्या ९३, १०.

घात-पित्त-श्लेष्म-हर- -रम्

योशि १, ९८.

घात-रज्जु- -ज्जुताम् मैत्रि

१, ४^१.

वातिक- -कम् व ४३३ : २०.

वा(ल्य>)त्या- -त्यया महा ६,

३२.

वा(ति>)ती^१-

वाती-कार^१- -रः नौ १, ३.

वायु^१- -वयः ध्या ५७; व्रवि ६६;

त्रिमा २, ९९; योचू २२; २४;

शां १, ४^१; योशि ३, १२^१; भा

१६; जाद ४, २४; वरा ५, ३, १;

२प्र ३६ : १९^१; सार २२८ : १;

२३३ : २०^१; २१-२३; गु १७;

वज ४, १५; सांस् २, ३१; सांका

२९; -वये छां २, २४, ९; वृ ३,

३, २; मैत्रि ६, ३३; ३५; मना २,

३७^१; ४७^१; ५७^१; त्रिवि ७, ४७;

गोव ६६^१; १बील तां^१; -युः ई

१७; के ३, ८; ४, २; क २, २,

१०; ३, ३; ३२, २; ५; ३-४, ८, ६,

४; सुं २, १, ३; ४; तै १, ३, २, ५,

२; ७, १; २, १, १; ऐ १-२, ४;

३, १०^१; ५, ३; छां १, ३, ७; ६,

२; १३, १; २, २०-२१, १; ३,

१३, ५; १५, २; १८, २; ४, ३, १;

१४; ५, ५, १; १०, ५; २३, २^१;

७, ४, २; ८, १, ३; १२, २; वृ १,

३, १३^१; ५, २२^१; २, ३, ३; ५, ४;

३, १, ५; ३, २^१; ६, १; ७, २; ७^१;

१, ३; ७; ५, १५, १७^१; ६, ४, २, २;

२३; ये २, ६; ४, २७^१; मै ४, ४;

१२; ५, ५; मैत्रि २, ६^१; ४, ५, ५;

१; ६, ५; ३३; ३५; कै १, १५;

गर्भ १^१; २; ना १; मना १, २७^१;

२, १५^१; ६८^१; ७९^१; अना

१३; अशि २, ५; ५, २०; ६, १५;

वृजा १, १; ८, ६; वृपू ५, २०;

काला ६; सुधा १^१; १४^१; २; ५;

७^१; १३; १४^१; तै १, ३, २; २,

२७; ४, १७; ५, ३६; ७६; नाद

५६; ध्या १०; ७९; व्रवि १४;

१योत ८२; ८४; ९५; ११६;

त्रिमा १, ५; ९; २, ११३; योचू

५१; ७२; ९०, ९१^१; ११८; सार

२, १०^१; रापू ४, ६१^१; शां १,

४; ७, ६; वे १, १६; महा १, १;

शारी १; योशि १, १२०; १२२;

१७०; ५, ६; १९; ४१; ६, ६९;

७०; १संन्या २, ७२; अव्य २;

सू १२; अध्या १^१; कुं १४; सावि

३^१; त्रिता १, ५१; २ ६४; यो १,

१९; ६२; भ १, ५; २, ११; गद;

१आ १; जाद ६, ४२; ४३; गोपू

१६; २५; २९; गोव ७^१; कृ

२०; वरा १, ५; ५, ४६; ५१; ६३;

७३; ७४; सौ २, ६; च २० : २;

२प्र ३६ : १८; गोच ६९; १०;

नापू १, ५; ७; नाद १, १५^१; पा

२, २; वृ १०; लि ३१० : ७; वडू

३१३ : ८; ३१७ : ११; २२; सिशि

३८२ : १२; गार ४०५; ६; गु ५२;

व ४४१ : ३; ४; ४४६ : ९; वपू १,

२; वज २, २; १९; ३, ७; ४९; ४;

१६; ४१; ५, २७; भव २, १५;

३, २१; गो २, ६७; ७, ४; ९, ६;

११, ३९; १५, ८; -युना छां ३,

१८, ४; वृ ३, १, ५; ७, २^१; गर्भ

४; ध्या ४८; ८९; १योत ८३;

११३; त्रिमा २, ११९; योचू

६३; त्रिवि ५, १२; छां १, ४;

योशि १, ८५; ८६; ११४; ११५;

१२७; ३, ९; ६, १६; यो १, ४३;

जाद ६, ४२; वरा ५, ६२;

- a) अव्य. वैपश् यद. । b) तु. गप. वृ ५४८ । c) तैश्चा १०, ९, १^१ । d) ऋ ८, १८, ९ । e) तैश्चा ८, ८, १ ।
f) तैश्चा ३, ७, २ । g) ऋ १, ९०, ६ । h) *गसर्ववि* इति निशा. यनि. शोधः द. (तु. अख्या.) । i) *वा तरुणाम्*
इति मै १, ७; अत्र. संति. । j) भाप. । धा. अर्थः ? = प्राप्ति- इति नादी. । k) उच. उच. कर्तरि अण् । l) = पवन-
तदधिष्ठान-देवता-, यकार-बीजाक्षर- । m) *यो इति अख्या. । n) मा १, १ । o) तैश्चा १०, ३, १ । p) तैश्चा १०,
२, १ । q) तैश्चा १०, ४, १ । r) *मरुते* इति ध्यान. । s) मा ४०, १५ । t) मा ३२, १ । u) *युम् इति सात. ।
v) तैश्चा १०, १४, १ । w) तैश्चा १०, २९, १ । x) तैश्चा १०, ६३, १ । y) मा ३१, १२ । z) *मरुत्* इति अख्या. ।
a') *यो इति निशा, *यू इति अख्या. यनि. शोधः द. । b') = यकार-बीजाक्षर- । c') तैश्चा ८, १, १ ।

निह १,२१; सिशि ३८२ : २०;
 -युभिः योशि १, १६६; ५, २; युम्
 के ३, ७; छा ३, १५, २; ६; ४,
 ३, १; ३; १७, १५, १०, ५, १४,
 १; ७, २, १; ५, १; ११, १; वृ १,
 २, ३; ३, ३, २; ७, ७; ५, १०, १;
 ६, २, १६; हं ६; मै २, ६; अना
 १२; कौ २, १२^१; वृजा ८, २; वृष
 ५, १४; सुभा ७; ९; ११^१; ध्या
 २०; ३८; १योत ३७; ४१; ८६;
 ८९; ९९; १०५; १०६; १योत
 २, ३; विभा २, १६; १११;
 योचू ८९; ९०; १०५; ११९;
 शा १, ५; ६; ७, १; ७; १४^१;
 ४३^१; ४५-४७; ४६; वै ३, १;
 योशि १, ९१; ९३; ९५; ९७;
 १०४; ६, १६^१; ७४; ७५; लघ्या
 १; यो १, १६; २४; ३०; ८४; ३,
 ७; ८; १२; १३^१; जाद ६,
 २५-२७; ३०; ३१; ४०; ७, ५;
 १०; वरा ५, ६८; ३३१^१; सौ २, ३;
 २४ ३२; १२; लां २१६; २; वड
 ५, ७; मसू ४, ३, २; यून कच ३,
 २४; यूनाम् १योत ११६^१; वरा
 ५, ६१; -यो के ३, ७; तै शां १^१;
 १, १२, १^१; व ४४१; ४; १^१;
 ४४६; १६^१; ४५१; १; ४५४;
 १६^१; -योः तै २, १, १; छां २,
 २२, १; ४, १७, २; वृ २, ३, २, ५,
 ४; ६, ३, १६; अना १०; अशि
 ६, १५; सुभा १; ध्या २३; लु ७^१;
 १योत ५०; ५२; ९, ७; विभा १,
 १४; १५; योचू ७२; ९९; शां १,
 ७, ८; वै १, १६; महा ३, ११;
 शारी १; योशि १, १, १; १७७;

५, १४; १संया २, ५९; कुं १४;
 कठ १४; जाद ४, ३१; ४०; ६,
 १२; १३^१; नाड १, १५^१; पा
 १०, २; वड ३६७ : २२; गार
 ४०५ : ७; गी ६, ३४; -यो तै
 १, ६, १; छां ५, २३, २; वृ २,
 १, ६; ५, ४; ३, ६, १; ७, ७; कौ
 २, १२; ४, ७; सुभा २; ५; विभा
 १, ९; पै ३, १; शारी १; योशि
 ५, ५१; जाद ६, ३६; ३७; गोड
 ७; वरा ५, ४७.
 वाय(व>)वी'- -वि व ४३१ :
 १६; ४५२ : ६; -वी नाद ६;
 -य्याम् हं ८^१; नाप ६, १; सि
 २, १८; ६, ८०; ८४; व ४३० :
 १७; ४४१ : ३; ४४६ : २;
 ४५१ : ६.
 वायव्य- -व्यः अना ३१, -व्यम्
 अशि ३, ७; वड ३१५ : ६; शि
 ५, ३१; गार ४०७ : ७; -व्ये सुता
 ४, ४; राधा १, १९; सि ६, ७४;
 -व्येन अशि ३, ७; वड ३१५ : ७.
 वायव्य-क- -कम् शि ५, ३४.
 वायव्य-द्वल- -लम्, -ले ध्या
 ९३, ७.
 वायव्य-दिग्- -दिगाम् व
 ४२८ : १६.
 वायव्य-स्नान- -नम् नाप ७.
 वायु-कार्य-प्राणा(शु-आ)दि-
 विषय- -याः विभा १, ६.
 वायु-क्रिया- -व्ये मसू २, ४, ९.
 वायु-ग- -गः पिं ६.
 वायु-गति- -तिम् वरा ५, ३१.
 वायु-गुण- -णी शारी १
 वायु-गोबर(>)रा- -राः योशि

६, १४.
 वायु-चेष्टा- -ष्टाम् जाद ४, १२.
 वायु-जय- -यः सौ ३१.
 वायु-जित्- -जित् विभा २,
 १०३; ११९.
 वायु-दण्ड- -ण्ड व ४३५ :
 १०.
 वायु-द्वल- -ले वि ११.
 वायु-देव- -वम् रार १, ७.
 वायु-देवता- -ता आद ४, ३६.
 वायु-द्वार- -रम् अना २१; व
 ४२७ : २३.
 वायु-द्वि(शु)ण्ड- -काय शु
 २, ५.
 वायु-धारण- -णे १योत ४९.
 वायु-नन्दन- -ननं लां २१६ :
 १५.
 वायु-निरोधन- -नम् अद्वै १२.
 वायु-पुत्र- -पुत्र रार १, ३; -त्रः
 लां २१३ : ३; -त्रम् रार १, ७;
 -त्रेण रार १, ७^१; राष्ट्र ४, २०^१.
 वायु-पुर-गामिन्- -मी यो १३.
 वायु-पूत- -तः कै २, ५; अशि
 ७, २; वृ ५, १२; वृजा ८,
 १; नि ५७; रार ५, १७; राठ
 ५, ४; सुद ४; पै ४, २३; महा
 ६, ८३; ता ३, ९; वरा ५, ७६;
 सौ ३, १; व २१ : ८; वड ३१८ : ४.
 वायु-पुरित-रचित- -तः १योत
 १४१^१.
 वायु-प्रतिष्ठा(शु-आ)काना-
 (श-आ)स्मन्- -स्मां, -स्मानः^१
 कौ २, १४.
 वायु-बीज- -जम् द २.
 वायु-भक्ष- -क्षः कुं ४.

a) सकृत् 'दिग्' इति शांखा ४, १२ । b) पा° इति निशा. यनि. शोषः द्र. (तु. अश्या.) । c) पा° इति निशा., अश्या. यनि. शोषः द्र. (तु. अश्या. संदि.) । d) °युना इति निशा. । e) तैषा ७, १, १ । f) तैषा ७, १२, १ । g) ऋ ८, २६, २१ । h) पा° इति अश्या. । i) तैषा ८, १, १ । j) =देवीविशेष- वा दिग्विशेष- वा मात्राविशेष- वा । k) °व्ये इति निशा. । l) °युम् इति अश्या. । m) ईरपु° इति आन. । n) पा. ई° तं (दि२) वा °लम् (दि१) वा शोषः । o) °ष्टः भा° इति आन., शांखा ४, १४ । p) °ष्टाः भा° इति आन., शां ४, १४ । q) =यकार-बीजाक्षर- ।

वायु-मण्डल- -रुम् व ४४१ः
४; ५.

वायुमण्डल-घात-

वायुमण्डलघात-

तस(>) वरा ५, ३९.

वायुमण्डल-संवृत- -तम् पं
१०.

वायु-मय- -यः वृ ४, ४, ५.

वायु-मात्रा- -त्रा प्र ४, ८.

वायु-मार्ग- -र्गेण योशि ६, १४.

वायुमार्ग-निरोधक- -कः

योशि १, ११०; यो १, ५१.

वायु-रक्षा- -क्षा व ४३४: १५^२.

वायु-लक्षण- -गम् वरा ५, २.

वायु-लोक- -कम् कौ १, ३; भ
२, २५.

वायुलोक-काम- -मः भ २,
२५.

वायुलोक-ज्ञान- -नम् शां
१, ७, ५२.

वायु-वक्त्र- -क्त्रे वरा ५, ६२.

वायु-वत् १ योत ९७; नाप ५,

३७; पै ४, १२; योशि १, ८.

वायु-विजय- -यम् शां १, ७,
४५.

१ वायु-वेग^०-

वायुवेगि(व>)नी^०- -नी
नाद ९.

२ वायु-वेग^०- -०ग लां २१४:
१२.

वायु-संभाव- -वैः कुं २१.

वायु-संचार- -रम् त्रिमात्र, ६३^१;
शां १, ४.

वायु-सं(हा>)क्ष- -क्षः क ११४.

वायु-सूनु- -सुम् राष्ट्र ४, ३५.

वायु-स्थान- -नम् १ योत ९५;

त्रिमात्र २, १३९; शां १, ४; -ने
गर्भं २^१.

वायु(यु-अं)श- -शाः पै २, ७;

-शे त्रिमात्र २, १४४.

वायु(यु-अ)भि-सोमा(म-आ)-

दित्य-ब्रह्म-विष्णु-रुद्र- -द्रैः

दत्ता ३.

वायुवा(यु-आ)घात-वशा-

-शात् यो १, ८४.

वां^१ आप ३९८: १९; व ४४६: ३;

घां-घां^१ व ४३६: २२.

वाक-, वाकोवाक्य-, वाक्य-

√वच् द.

वागु(र>)रा^१-

√वागुराय, वागुरायते नाद ४५.

१-२ वाच्-, वाचक- √वच् द.

१ वाचके^१ यो १, ७६.

वाचक्यी- वचक्यु- द.

वाचिक-, वाच्य- √वच् द.

वाज^१- -जस्य व ४३७: ८५^१;

-जाः कौ २, ८५^१; -जेभिः सर २, १५^१;

३५^१.

वाज-पेय^१- -यः पाशु १, २९; -येन

वृ ६, ४, ३; वृ ५, १७; व ५,

१५.

वाजपेय-शत- -तानि योशि ६,

४३; गोच ६८: १७; व १, २७.

वाज-श्रवस्^१- -वस-, -याः वृ ६,

५, ३.

वाजश्रवस्^१- -सः क १, १, १.

वाज-सनि^१-

वाजसनेय^१- -यः वृ ६, ३, ८;

-याय वृ ६, ३, ७; -येन वृ ६,
५, ३.

वाजिन्- -जिनः १ शिसं ६५^१; २ शिसं
५५^१; -जिने नो २, ४५^१; -जी वृ

१, १, २.

वाजिनी-

वाजिनी-व(त>)ती-

-ती सर २, १५^१; ३५^१.

वाजिनी-वसु- -सु तै १,

१०, १; नाप ४, ३८^१;

वाजि-पति- -०ते वृ १, ३.

√वाञ्छ, वाञ्छति आबो १५; महा २,

४७; अन्न २, २६; ४, ५; ८; वरा

३, २६; सर ३, ७; वाञ्छन्ति महा

५, १७७; वाञ्छामि अन्न २, ३-

वा(ञ्छ>)ञ्छा- -ञ्छा १ संन्या २,

३५; अन्न ५, ३७; -ञ्छाम अन्न

५, ३७.

वाञ्छा-क्षण- -णे अन्न ५, ३७.

वाञ्छित-

वाञ्छित-प्रद- -दः सर २, १८.

वाञ्छित-फल- -रुम् ग १८.

वाञ्छितफल-दायु- -तारः

सार २६२: १४.

वाञ्छिता(त-अ)र्थ- -र्थम् रार

४, १३; सिशि ३८३: ५; -थिर्

द २०.

वाटिका-, वाट्य- √वट् द.

वाडव- २ वडवा- द.

वाण्ड्य- वण्ड्य- द.

वाणी- √वण् द.

वात-, वातिक-, वाती-, वातीकार-,

वात्या- √वा द.

वात्स्य- २ वत्स- द.

a) ०तकः इति अख्या. 1. b) तु. गपू. पृ ३८८। c) तस। d) =मात्राविशेष-। e) वत्स। f) ०युसारं च इति निसा., अख्या. संदि.। g) ०नम् इति निसा. यनि. शोधः द. (तु. अख्या.)। h) =बीजमन्त्रविशेष-। i) तु. गपू. पृ ३३८। j) व्यु. १ =पाठ-। k) पा. ? 'पाचके' इति शोधः ?। एवं सस्य. अतिवर्धते > ०र्धित-> -ते, धावपति [गपू. (पृ ४२०s)] > धारवन्ति, अग्निमूपा [गपू. (पृ १२)] > अग्निः, मूपा, हिं इति शोधान्तराणि ? द. 1. l) वरा. वैपरी यद.। m) श्र १, ९१, १६। n) श्र १, ९१, १८ (वैदु). 'राजाः' इति अख्या.)। o) श्र ६, ६१, ४। p) श्र १, ३, १०। q) मा ३४, ६। r) 'मीदुये' इति मा १६, ८। s) तैशा ७, १०, १।

वाद-^१, वादयत्-^२, वादित्र-^३, वादित्र-^४,
 वाय-^५, वायमाना-^६ / वद् द.
 वानप्रस्थ-^७ / वव् (वषा.) द.
 वानर^८-^९ रः व ४५९; १४; -रात्
 राप् ४, २५.
 १वानरी-
 २वानरी^{१०}-^{११} री १संन्या २,
 १०१.
 वानरीभाज-
 वानरीभाक्त्व-^{१२} स्वम्
 १संन्या २, १०१.
 वानरी^{१३}-
 वानीर-कुञ्ज-^{१४} -ञ्जाः सार २५८;
 २३; -ञ्जे सार २६७; २१.
 वानीर-श्रेणि-निकुञ्ज-^{१५} -ञ्जे सार
 २६५; १६.
 वापयित्वा-^{१६} / वप् (वषा.) द.
 वा(वि>)पी^{१७}-^{१८} -प्यः सार २३३; १९.
 १वाम^{१९}-^{२०} -मानि छां ४, १५, २^१; ३^२.
 वामनी^{२२}-^{२३} -नीः छा ४, १५, ३.
 २वाम^{२४}-^{२५} -मस्य १थोत ११२; जाद४,
 १९; -मे वृ ४, २, ३; ध्या ५५;
 योच् १८.
 ३वाम, मा^{२६}-^{२७} -मम् जाद ३, ८;
 -मया योच् ९८; शां १, ७, १;
 -मान्याम् पी ४२१; ३; -मे
 राप् ४, ३१; यो १, १२; अक्ष
 ३; भ १, ६; सौ ३, १; योरा
 १२; -नेन लु १६; निवा२, ४९^२;
 शां १, ३, ७; योशि ५, १९; ६, ६;
 वउ ६, ४१.
 वाम-क-^{२८} -के गृ ५.
 वाम-तत्त (>) १) अव्य द; शि २,
 १२.
 वाम-दक्ष-^{२९} -क्षे योशि ६, ३४.
 १वाम-दक्षिण-^{३०} -णे वप् २, ४.

वाम-दक्षिण-मध्यस्थ-^{३१} -स्थम्
 यि १२.
 वाम-कटक-^{३२} -कः गृ ५.
 वाम-कर-^{३३} -रे वपं ३११; १.
 वाम-कर्म-^{३४} -में योच् २०; शां १,
 ७, ५२.
 वाम-चक्षुस्-^{३५} -क्षुपि योच् १९; शां
 १, ७, ५२.
 २वाम-दक्षिण-^{३६} -णे पित्र १, १३.
 वाम-दक्षिण-मार्ग-^{३७} -मार्ग्याम्
 योच् २८; -गैण ध्या ५९; योच्
 ९३; योशि ६, ५१.
 वाम-नासा-पुटा(ट-अ)वधि-
 -धिः नित्रा २, ७०^६.
 वाम-पाणि-तल-^{३८} -ले वि ५, ४८.
 वाम-पाद-^{३९} -दम् गृ ५; -वेन स ९.
 वामपाद-पारिण-^{४०} -रिणम् शां १,
 ७, ४३.
 वामपाद-मूल-^{४१} -लेन शां १, ७,
 ४३.
 वामपादा(द-अ)र्चित-विष्णु-
 नेत्र^{४२} -त्रः श १०.
 वाम-पार्श्व-^{४३} -श्वं र्ह ५.
 वाम-बाहु-^{४४} -हुम् त्रिता ३, ९; -हौ
 ऊ ६४; ८; वपं ३१२; १५.
 वामबाहु-दक्षिणकटि-^{४५} -ट्टोः
 पाशु १, २५^१.
 वामबाहु-मूल-^{४६} -ले भ १, ६.
 वाम-भाग-^{४७} -गे रार ३, १; नाप् ४,
 २४.
 वाम-श्रोत्र-बिन्दु-^{४८} -न्दुः दे १३.
 वाम-हस्त-^{४९} -स्ते भ १, ५.
 वामो(म-अ)स-^{५०} -दक्ष-कट्य(टि-अ)-
 न्त-^{५१} -न्तम् पत्र ३, १०.
 वामो(म-अ)सा(स-अ)दि-^{५२} -
 दक्षिण-कट्य(टि-अ)न्त-^{५३} -न्तम्

पत्र २.
 वामो(म-अ)क्षि-पर्या(न्त>)न्ता-
 -न्ता जाद ४, २०.
 वामो(म-अ)ङ्ग-^{५४} -ङ्गेन १थोत ११४.
 वामो(म-अ)ङ्गुष्ठ-^{५५} -ष्ठम् नित्रा २, ४९.
 वामो(म-अ)ङ्घ्रि-^{५६} -ङ्घ्रिणा ध्या
 ९३; योच् ६६.
 वामो(म-अ)ङ्गुल-^{५७} -लम् यो १, ६^१.
 वामो(म-अ)वर्त-^{५८} -र्तेन सुमु १११.
 वामो(म-अ)तर-दश-^{५९} -दशौ नित्रा
 २, ७३.
 वामो(म-अ)रु-न्यस्त-^{६०} -तद्-घ-
 (<ह्रस्व-^{६१} -स्तम् रार २, ४.
 वामो(म-अ)रु-मूल-^{६२} -ले नित्रा २,
 ४८.
 वामो(म-अ)रु(र-उ)परि शां १, ७,
 ४३.

४वाम^{६३}-
 वाम-कक्ष^{६४}-
 वामकक्षि^{६५}-
 वामकक्षायण^{६६}-^{६७} -णः, -णात्
 वृ ६, ५, ४.
 १वाम-देव^{६८}-^{६९} -वः ऐष्ट, ५; वृ १, ४,
 १०; पं १; वरा ४, ३४; ३६^१; तुल
 ७१; २२; नाप् १, १०; वि १;
 मिति ३८२; ११; -वस् पं ५;
 वरा ४, ३५; वि ५; -वात् वृजा १,
 १; सिधि ३८१; ७; -वाय मना
 २, १८९^१; शु २, ५; भ १, ५; तुल
 ७१; २२; -वेन वरा ४, ४१.
 २वाम-देव-^{७०} -वम् गार ४०७; ८.
 वाम-देव-तत्त (>) १) वृजा ४, १०.
 वाम-देव-वच् सां ४, २०; वप्
 १, १, ३०.
 वाम-देवा(व-अ)दि-^{७१} -दिः सां ५,
 १५७.

अ) व्यु. १ = मर्कट- । b) = श्रुतिविशेष- । c) व्यु. १ । d) = विशेष- । वै ११ म्. । e) व्यु. १ = सभ्य- ।
 f) = विशेष- । g) ० धि इति निता. । h) कस्. > वस. । i) ० ह्योः द् ० इति अच्चा. संदि. । j) ० लक ० इति निता.
 यनि. बोधः द्र. (द्र. अच्चा. । k) व्यु. अर्पेद १ । l) = गोत्रप्रवर्तक-अधि विशेष- । m) = अधि विशेष- वा शिव-
 वा । n) तैषा १०, ४४, १ । o) 'वामेन' इति अच्चा.

वामदेव्य^१ - वयम् छां २, १३, १; २; मना २, ७९; १; गरु ११; १०.
 १वामन^० - नम् क २, २, ३; -ना: गर्भं ३.
 २वामन^० - न: नापू ५, ६; वपू २, ४; -नम् श ३; -नाय त्रिवि ७, ३८; ४१
 ३वामन - नम् गार ४०७; ९.
 वामना(न-श्र)वतार - राय नापू ५, १०.
 ५वा(म>)मा^१ - मा सुमु १५.
 ६वाम^० - मम् वृजा ३, ३१; ४, ३; त्रिता २, ५; १४.
 वामा(मा-श्रा)दि - नव-शक्ति - -क्ती: वृजा ४, २०.
 वायवी - वायव्य - वायु - √वा (*बधा.) द.
 वायुर^० - रम् वृ ५, १, १.
 वार^१ -
 वार-धि - धि: छाग २४: २१.
 १वार^१ -
 वार-तस(>): पारा १६.
 वार-यक्ष-मासा(स-श्रा)दि - दि ते ६, १८.
 २वार^१ - रम्-रम्^१ ध्या ६९; योचू ४०; योशि १, १०४.
 वार-त्रय - यम् तारा ८३: ७.
 वारण^१ - ण: अचू १, ४२.
 वारतन्तवी - √वृ(*बधा.) द.
 वारयमाण - √वृ(पतिपातने) द.
 वाराणसी - ३वरण - द.
 वाराह - वराह - द.
 वारि^० - रि महा ५, ६६; योशि १, १६५; अम १, २०; भव १, ५१;

३, २१; -रिणा वृजा ४, ९; ध्या ७१.
 वारि-ज -
 वारिज-लोच(न>)ना - -०ने व ४६६: ८; १०.
 वारि-वत् १योट १०.
 वारि-वाह - ह: पित्र १, १५; ११.
 वारुण - १वरुण - द.
 वारुणा - ३वरुण - द.
 वारुणि - २वरुण - द.
 वारुणी - ३वरुण - द.
 वार्कारुणी - १वृक - द.
 वार्क्ष्य - वृक्ष - द.
 वा(र्ता>)ती^० - -र्तां सी ३११; -र्ताम् सार २५०: ११.
 वार्ता-क -
 वार्ताक-वृत्ति - -सय: आश्र २; ११.
 वार्ता(र्ता-श्र)वसर - -र: ते ६, १४.
 वार्त्रघ्न - √वृ(*बधा.) द.
 वार्धक - वार्धुपिक - √वृष द.
 वार्थ - √वृ(वरसे) द.
 वार्पण - वार्पिक - √वृष द.
 वार्ष्ण - वार्ष्णय - √वृश्(*बधा.) द.
 वा(<>२वा^०)ल^० -
 वाला(ल-श्र)म - प्रात् महा ५, ९०; ६, ५६.
 वालाग्र-मात्र - त्रम् अशि ५, १६; वडू ३१३: १.
 वालाग्र-शत-कल्पित - -त: त्रवि १४.
 वालाग्र-शत-भाग - -नस्य श्रे ५, ९; भव २, ३६.

वालाग्र-शत-साहस्र - -त्तम् ध्या ४१.
 वालिन् - -लिन: -लिनम्-ली रापू ४, २३.
 वालखिल्य^० - वय: पाशु १, २; २३; -व्या: मै २, ३; मैत्रि २, ३; आश्र ३.
 वालु(क>)का^० -
 वालुका-त्रपुसा(स-श्रा)दि - -दीनि शि ६, १९.
 वाल्मीक - वल्मी - द.
 वाव^० के ४, ७; प्र ४, ४; तै १, ५, २; ऐ २, ३; छां १, १३, १; वृ १, ४, ५; मै ३, २; मैत्रि २, १; छाग २३: ४; शौ ५१: ४.
 वावृधान - √वृष द.
 वावृहाण - √वृह द.
 वास - १वासन - √वस्(निवासे) द.
 २वास(न>)ना - वासन्ती - वासव - √वस्(*बधा.) द.
 वासर^० - -र: महा ५, १०७; -रे सार २२६: १९.
 १वासस् - √वस्(निवासे) द.
 २वासस् - √वस् (आच्छादने) द.
 १वासित - √वस्(निवासे) द.
 २वासित - √वस्(गन्वे) द.
 वासित् - √वस्(*बधा.) द.
 वासिन् - √वस्(निवासे) द.
 वा(शि>)सी^१ - -सीभि: आं ७: ७.
 वासुकि^० - -कि: रापू ४, ५३; गरु ५; १४; व ४४२: २२; २३; ४४८: ६; गी १०, २८; -०के व ४४२: २३.
 वासुकि-कृत - -त: गरु १४.

a) तैआ १०, ६३, १। b) मा १२, ४। c) व्यु: = अतिह्रस्व-। d) = संभजनोय - इति पृथक् प्राति. इति सं. ?। e) व्यु: = विष्णुवतारविशेष-। f) व्यु: = शक्तिविशेष-। g) अर्थ: ?। h) व्यु. अर्थय ? = वायुमत् - इति रा. प्रष्ट.। i) = जल-। वैप १ यद.। j) व्यु: = दिन-। k) व्यु: = पर्याय-। l) वा. कि. वि. द.। m) व्यु: = हस्तिन्-। n) व्यु: = जल-। o) *चनस^० इति पा. १ यनि. शोध: द.। p) व्यु: ?। q) प्रादेशिकोच्चारणभेद-मात्रत्वेन निर्देश:। r) वैप १ यद.। s) वासा^० इति निसा. यनि. शोध: द. (दु. अख्या.)। t) *तसहस्रार्धम् इति ध्यान.। u) = श्रेयिकविशेष- वा वानप्रस्थविशेष- वा। v) व्यु: = फलविशेष-। w) अर्थ. वैप १ यद.। x) = वारी-। वैप १ यद.। y) व्यु: = नामविशेष-।

वासुकि-मण्डल- स्तम् व ४४२ :
 २३; ४८३: १.
 वास्तय- वस्तु- द.
 वास्तु- /वम्(निवास) द.
 वास्तुक- - कम् शि ६, ८१.
 र्वास्थ- /वम्(आच्छादने) द.
 र्वास्थ^{1b}-
 पात्वा(स्व-भ्रा)दि-
 वास्यादि-वत् सोम ५, ६९.
 वाह-, वाहिन्- /वह्(°वधा.) द.
 ५°श्चि- वयः मना २, ७३; चा २०.
 र्चि- /विण् द.
 विशति- -ति: छां ७, २६, २; इ
 १९: ३; -ती: शि ६, १८७.
 विशा- -शाम् गार ४०७: ९;
 १४; -शे अक्ष ५.
 र्विशा-
 विशा(श-भ्र)र्णक- -क: रार २,
 ६५.
 विशति-प्रत्य(ति-भ्र)>रा-
 -राभि: श्व १, ४; नाप ९, ३.
 विकङ्कत^{1b}-
 वैकङ्कत-
 वैकङ्कती- -ती मना २, २६५;
 वृजा ३, १५.
 वैकङ्कत-फल- -लानि शि ६, १६.
 वि/कच्
 विकच- -चै: शि ७, १३७.
 विकट- -राय पा ७, २.
 विकटा(ट-अङ्ग)>ङ्गा- -ङ्गाम् वृजा
 ३, १.
 वि/कम्प्
 विकम्पितुम् गी २, ३१.
 विकरण-
 विकरण-व- -वत् प्रत्य २, १, ३१.
 विकरण-भाव- -व: योस ३, ४९.

वि-कर(णा>)ण-
 वैकारण्य- -णयम् गै ३, ५६.
 विकर्ण- -र्ण: गी १, ८.
 वि-कर्मन्- -र्मण: गी ४, १७.
 वि-क(ला)>स्त- -स्त: नाप ३, २.
 विकल-ता- -ताम् सार २९२: ४.
 विकले(त-इ)न्द्रिय- -य: सार
 २४३: ९.
 वि-कलन- -नम् अत्र ४, ९१.
 वि/कस्
 विकम्-
 विकसी/कृ
 विकसी-कृ(त)>ता- -ता
 यो ३, १९.
 वि-कसित- -तम् सुभा ४: ११;
 गोउ ४६: ५१; शि ६, ८.
 वि-कार-, वि-कारिन्-, वि-कार्यं-
 वि/कृ द.
 वि/कास्, >कासि, विकासते अिता
 १, १४: १५.
 वि-कासयस्- -यन् वरा ५, ४३.
 वि/कित्(शने), >चिकित्स्, वि-
 चिकित्सते अदि ५; विचिकि-
 त्सन्ति क १, १, २९.
 विचिकित्सी: वा २३.
 वि-चिकि(त्स)>सा- -स्ता क १, १,
 २०; छां ३, १४, ४; घृ १, ५, ३;
 मैत्रि ६, ३०.
 वि-चिकित्सित- -तम् क १, १, २१;
 २२.
 वि-चिकित्स्य- -त्स्यम् उउ ९,
 ११^m; १७.
 वि-किर-, वि-कीर्ण- वि/कृ द.
 वि-कुण्ठ-
 वैकुण्ठ- -ण्ड: घृ २, १, ६; कौ ४,
 ७; ते ६, १८; त्रिवि २, १; राधा

१, ६; १; ण्डम् वृजा ७, ६; कृ
 २५; तुल ७२: २; य १०; सार
 २८५: १८; सु २९३: १०;
 ण्डस्य त्रिवि २, १; ण्डा: त्रिवि
 ८, ४; ण्डान् त्रिवि ५, १४; ण्डाय
 सार २५७: २३; ण्डे सार
 २१९: ३; २२०: १९; ३०;
 २५७: १४; २७४: ४; २७५:
 १२; २८५: १९.
 वैकुण्ठ-कल्प-तरु- -रुवे त्रिवि
 ७, ४३.
 वैकुण्ठ-पद्- -दम् नाउ ३, १५.
 वैकुण्ठ-पापद- -दा:, -दै: त्रिवि
 ५, १२.
 वैकुण्ठ-पुरी- -री राधा ४, ५.
 वैकुण्ठ-भुवन- -नम् ना ४;
 आयो १^p.
 वैकुण्ठ-लीला- -लाम् सार
 २४९: २०.
 वैकुण्ठ-लोक- -क: शु १०.
 वैकुण्ठ-वासिन्- -सिन: त्रिवि
 ५, १३; -सिभि: त्रिवि ७, १.
 वैकुण्ठ-स्थान- -नात् वा ३;
 गोच ६५: ४.
 वैकुण्ठस्थानो(न-उ)न्नव-
 -वम् गोच ६५: ३.
 वैकुण्ठा(सुठ-भ्र)न्न- -नात् तुल
 ७०: ६.
 वैकुण्ठा(ण्ड-भ्रा)श्रित(त)>ता-
 -ताम् सार २५७: १८.
 वि-कुर्वन्- नाउ. द.
 वि/कृ, विकरोति गी २, १३; ब्यकुल
 घृ १, २, ३; मै ५, ३; मैत्रि ६, ३.
 विक्रियते नाप ४, ४; २५ ३५:
 १३.
 वि-कृहं- -र्नां सुवा ६.

a) व्यु! = शाकविशेष- । b) = वासि>सी- । c) = पद्मिन्- । वैप१ यद. । d) अ० १०, ७३, ११ ।
 e) वैप१ यद. । f) उ. गप्. पृ २०३t । g) उ. गप्. पृ २०४a । h) = वृक्षविशेष- । वैप१ यद. । i) तेषा १०, १९, १ ।
 j) उ. गप्. पृ १७५a । k) °कारि° इति शब्दा, 'नैष्का° इति मैत्रि ३, ५ । l) व्यु! = धार्तराष्ट्रविशेष- । m) °सम्
 इति निसा. । n) व्यु! । o) = इन्द्र-, विष्णु-, विष्णुलोक- । p) °ण्डम् इति शब्धा. ।

वि-कार-रः छां ६, १, ४-६; ४,
१-४; मैत्रि ६, १०; त्रिमा २,
२०; पत्र २; सर ३, २३; २प्र
३४ : ७; सांका ३; -रम् योच्
१०९; १२१; अक्ष ५, ३९; भव
२, ७; भव ४, ६; -नाः गर्भ ३;
त्रिमा २, १३; शारी ६; -रान् गी
१३, १९; -रेषु नि २८.
विकार-जननी-नीम् मन्त्रि ३;
चू ३.
विकार-दण्ड-ण्डः निर्वा
२९८ : १.
विकार-रहि(त>)वा-ता तसा
१, ४०.
विकार-शब्द-शब्दान् वसू १,
१, १३.
विकार-स्थ-स्थम् त्रिमा २,
२०.
विकारा(र-आ)कर-रम् मैत्रे २,
५१.
विकारा(र-आ)दि-दि ते ६,
५७; -दिभ्यः वसू २, २, ३५.
विकारादि-विहीन-
विकारादिविहीन-स्व-
स्वात् वरा २, ६०.
विकारा(र-अ)वयव-वौ गी
३, ७.
विकारा(र-अ)वर्तिन्-र्ति वसू
४, ४, १९.
विकारिन्-रिणः १भव २१;
-री २प्र ३४ : ७; ३५ : १२.
विकारि-स्व-स्वम् अक्ष १,
१५.
विकारि-स्व-अम-मः
अक्ष १, १६.

वि-कार्य-र्यौ २प्र ३५ : १२.
वि-कुर्वत्-र्वन् खे ५, ३.
वि-कृत-क्त-क्त अक्ष ५.
रवि-कृत-
विकृत-स्व-स्वेन सा ३, २२.
वि-कृति-तिः सांका ३; -तिम् पै
१, ६; मु २, २, ५०.
वैकृत-न्ताः सांका ४३; -तात्
सांस् २, १८; सांका २५.
वि/कृ>किर, विकिरति मुं २, १,
१०; विकिरत् वृजा ४, २.
वि-किर-रम् इ १५ : १३.
वि-क्री(री)>णी-णीः महा ३,
४५; या २, ११.
वि/क्रम,>क्राम्, ङि^१क्रामस्व मना
२, ४९; श ५; व्यक्रामत् त्रिवि
४, ९९.
विचक्रमे नापू ३, ३९^५; ४९^१; ४,
६९^१; ९^५व ४४३ : १६; ४४९ :
१; ४५३ : १.
ङि^१वि-क्रमण-णेषु वृपू २, १३; ४,
११.
वि-क्रान्त-न्तः गी १, ६.
वि-चक्रमाण-णः नापू ४, ६९.
वि/क्री
वि-क्रयिन्-र्यौ इ १७ : ९; २२.
वि/कल्प(<कृप्)>कल्प
वि-कल्प-ल्पः गी १, १८; ते ३,
४५; वृत् ८, १०; अथ्या २२;
२६; योस् १, ९; वसू ३, ३, ५९;
-रूपाः त्रिमा २, १४; -रूपेन अथ्या
१७^{१०}; -रूपेभ्यः १संन्या २,
३१.
विकल्प-कलना(न अ)न्वि-
(त>)वा-न्ता अक्ष २, ३३.

विकल्प-कलिता(त-आ)कार-
-रम् महा ५, १२३.
विकल्प-अय-यम् नाप ८, १७.
विकल्प-संक्षय-यात् अक्ष २,
३३.
विकल्पा(ल्प-आ)मनन-न्नात्
वसू ४, ४, ११.
विकल्पा(ल्प-अ)सहिष्णु-ष्णु
वृत् ३, ११.
वि-कल्पक-कः गी २, ११.
वि-कल्पित,ता-न्तः गी २, १७; १९;
-ता गी १, ७; २, १७; सर २, ७.
वि/क्षर, व्यक्षरत् छां ३, १, ४; २-५, ३
वि/क्षिप्, विक्षिपति व्र १.
विचिक्षेप कौ ४, १८.
विक्षिप्यते गी ३, ४६.
वि-क्षिप्त-सम् गी ३, ४२; ४४.
वि-क्षेप-पः ते १, ४१; १भव
२१.
-विक्षेप-नाक्ति-क्तिः पै १, ११;
सर ३, १८.
विक्षेपशक्त्या(क्ति-आ)वरण-
शक्ति-प्रभाशक्ति-त्रिकोण-
देवता-न्ताः नापू ६, ५^{१०}.
विक्षेप-सह-भू-भुवः योस्
१, ३१.
विक्षेपा(प-आ)वृत्ति-रूपक-
-कम् सर ३, १७.
वि/ख्या
वि-ख्यात,ता-न्तः ते १, ३६; नाप
४, १३; -ता अक्ष १, ५; सार
२४२ : २०; २४३ : २; -ताः
थ्या ५७.
वि/गम्
वि-गत-न्तः गी ११, १.

a) °हेतौ इति आन. । b) °राकारवि° इति निसा. यनि. च 'वि-स्तीर्ण->-गम्' इति च द्विपदः
शोधः द्र. (द्र. अथ्या.) । c) क्तेरि कृत. । d) अवि° इति निसा. । e) °तिकाः इत्यपि पाठे. । f) तैश्चा ३, १५, १ ।
g) अ १०, ९०, ४ । h) अ १, २२, १७ । i) अ १, २२, १६ । j) अ ७, १००, ३ । k) अ १, १५४, २ । l) अ १,
१५४, १ । m) अवि° इति अथ्या. । n) भावि° इति आन. । o) °रणं श° इति पा. इति यनि. शोधः द्र. । p) °पाव-
रणाः मकम् इति अथ्या. संटि. ।

विगत-कल्प- -पः गी ६, २८.

विगत-उवर- -रः अक्ष ३, ९; गी ३, ३०; -सौ महा ६, ४७.

विगत-नि(श्र)>द- -द्रः मैत्रि ६, २५; -द्रम् मै ५, ४; मैत्रि ६, ४; २५; ७, ५.

विगत-प्रपञ्च-गान्ध- -न्धः मं २, ४, ६.

विगत-भय- -यः मैत्रि ६, ३०.

विगत-भी- -भीः गी ६, १४.

विगत-खेद- -हः महा २, ५१;

जाद २, ६.

विगत-रुष्ट(हा)>ह- -हः गी २, ५६; १८, ४९.

विगता(त-अ)खिल-कौतुक-

-कम् अक्ष ५, २३.

विगता(त-अ)भी(ष्ट)>ष्टा- -ष्टा

अक्ष १, ५०.

विगता(त-अ)म(य)>या- -या

महा ६, ७३.

विगता(त-अ)शय- -यः अक्ष

५, १०१.

विगता(त-अ)शेष-कौतुक-

-कम् महा ५, ५९.

विगता(त-अ)शेष-संरम्भ-

-रम्भम् अक्ष ५, २३.

विगते(त-इ)च्छा-भय-क्रोध-

-धः गी ५, २८.

विगते(त-इ)तर-वास(ना)>

न- -नः सु २, २, ५८.

विगते(त-ए)नस- -नसा अक्ष

३, ५.

वि-गर्भ- -भं: ए ९.

वि/गल्

वि-गलत्-

विगलद्-वृत्ति-चेतस्- -तसः

महा ५, ६१.

वि-गलित-

विगलित-गुण-जाल-केयला-

(ल-आ)राम्- -रमा आबो ४.

विगलित-वास(ना)>न- -नम्

महा २, ७७.

वि-गुण- -णः गी ३, २५; १८, ४७;

-णम् ते ५, १२.

वि/गुप्>शुगुप्, विजुगुप्सते ई ६;

क २, १, ५; १२; वृ ४, ४, १५.

वि/गै, विगायेत् १अव ६.

वि-गीत- -तः वृ ६, ४, १८.

वि/ग्रह

वि-ग्रह- -हः राष्ट्र १, १३; १संन्या

२, ८७; -हम् राष्ट्र ४, २१; लि

३१०:१७; -हे मै ५, ७; मैत्रि

६, ७; महा ३, ३२.

विग्रह-वत्- -वान् मैत्रि ६, १६.

वि/ग्लै>ग्लापि

वि-ग्लापन- -नम् वृ ४, ४, २१;

नाप ५, १; अक्ष ४, २७; शा

२३; वरा ४, ३३.

वि/घट्

वि-घट-

विघटी/कृ

विघटी-कृत्य सौ २, ६.

वि/घस्>विघत्स्

वि-घस- -सः आप् ९: १३.

वि-विघत्स- -त्सः छा ८, १, ५; ७,

१:३^d.

वि-प्र- वि/ह्व द्र.

वि-चक्र- -क्राय त्रिवि ७, ४२.

वि-चक्रमाण- वि/कम् द्र.

वि/चक्ष्, विचक्षते आप् ९: ४; ५;

विचक्षे वा ४: १२; विचक्षत

व्याग २४: ९^c.

विचक्षिरे ई १०; १३.

विचक्षण, पा- -णः कौ २, ९;

वृजा ३, २९; १यौत १०३; राष्ट्र २,

७१; रुह १६; रुजा १, १४; वरा

५, ३१; -णम् प्र १, ११; -णा:

गी १८, २; -णाम् कौ १, २;

-णैः गौ २, ३१; राष्ट्र २, ९.

वि-चक्ष(ख)>णा- -णा कौ १,

३६; -णाम् कौ १, ५.

वि-चक्षत्- -क्षन् वा ८.

वि/चर(°वापा.)>चारि, विचरते पा

८, ९; विचरति अशि ५; ५; १३;

मद्र; अद्वै २; १६; १७; २प्र ३५:

१; विचरतः मैत्रि ६, २; विचरन्ति

पाद १, ०; सार २३५: १; विचरामि

सार २३४: २०; २५८: ३;

विचरेत् आरु ४; नाप ३, ४४;

५, २०; २४; ३७; जाद ५, १०.

विचरेतुः राष्ट्र ४, १९; विचरेः

पिन १, ३.

विचारय अक्ष १, ४०; विचार-

येत् पै २, ५२; ५३; महा ४, ३९.

विचार्यते हं १५; विचार्यताम्

महा ४, ७५; वरा २, ५६.

वि-चरत्- -रताम् गी ४, ९४; शां

१, ८; जाद ७, १.

वि-चार- -रः ते ५, ७९; महा ३, ३;

४, २; म ४९: १९; -रात् पै २,

५२; शि १, १७; -रे पिन ५, ७;

-रेण शु १, १७; महा ४, १०२;

अक्ष १, ४१; ४, ६२; यो १, ६१;

-रैः योशि १, ६०.

विचार-तस(>)ते १, ४८.

विचार-दण्ड- -ण्डः निर्वा

२९७: ८.

विचार-ना(मग)>नी- -नीम्

अशि १०.

विचार-पर- -रम् अक्ष ५, १.

विचार-रूप- -पः मैत्रे ३, १०.

h) प्रास. । b) =युद्ध- वा शरीर- वा । c) विमुक्ति इति निशा. °शु->शुः, विग्रह->हे इति

द्विपदः शोधः द्र. (घ. मैत्रि ६, ७) । d) अवि इति निशा. । e) 'विचक्षेम्' इति बे. संति. । f) पा. अर्पः ।

g) °णसं इति अल्पा. ।

विचार-वत्- -वान् अक्षि ९.
 विचारा(र-अ)भाव- -वात्
 त्रिवि ५,४.
 वि-चार(ण>)णा- -णा ध्या ७२;
 योचुष्ट २; महा ५, २४; २८; ११४;
 ११५; अक्ष ५, ८२; वरा ४, ११;
 ४९^५; गोच ६८: २२; वि १४.
 विचारणा-शुभे(भ-इ)च्छा-
 -च्छाभ्याम् महा ५, २९; वरा
 ४, ५.
 वि-चारितव(त्)>ती- -ती सार
 २७५: १३.
 वि-चार्यं हं २; महा ६, ४२.
 वि-चार्यण- -णम् तै १, ४, १; नाप
 ४, ३८^०.
 वि/चल>चालि, विचालयेत् ३.
 २९.
 विचालयते योशि ३, १३; गो ६,
 २२; १४, २३.
 वि-चालन-
 विचालन-स्थान- -नम् भ २,
 १८.
 वि/चि, विचिनोति मैत्रि ६, ३४;
 विचिन्वन्ति सु २, २, ४६.
 विचिन्वति^१ तुल ७०: १०;
 विचिन्वेत्^१ तुल ७०: ९.
 वि-चिति- -ति: ए ९.
 वि-चिष्य के २, ५, पा ७, ५९^०; मवा
 ८९^०.
 वि-चिन्व(त्)>ती- -ती सार
 २७१: ७.
 वि-चिन्वमान- -न: पा २, ७.
 वि-चिकित्सा(-वि-चिकित्सित-), वि-
 चिकित्सा- वि/कित् द.
 वि-चिन्त- -नम् शि ७, ५७.

वि-चित्र, प्रा- -प्रम् के १, १४; २, १;
 भव १, १२; -प्रा: १मंया २,
 २६; म् २, १, २८; -प्राणि महा
 ५, १६३.
 वैचित्र्य- -स्यात् सांस् ६, २.
 विचित्र-घोष-संयुक्ता(क-अ)-
 नाइत- -ते सौ २, ५.
 विचित्र-भोगा(ग-अ)नुपपत्ति-
 -त्ति: सांस् १, १७.
 विचित्र-शाला- -ला: सार २६६:
 १४.
 विचित्र-पुष्प-स्रग्-दामन्- -झा
 शि ६, १५२.
 विचित्रा(प्र-अ)म्बरा(र-अ)व्य->-
 ह्या- -ह्याम् व ४२७: ३.
 विचित्रे(प्र-इ)न्द्रिय-वृत्ति- -त्तय:
 १संया २, २३.
 वि/चिन्त्>चिन्ति, विचिन्तय
 योशि ४, ५; सु २, २, ५०; वि-
 चिन्तयेत् अना २०^१; ३२^६; ध्या
 ३०; जाद ५, ८; शि ७, ११६;
 ११७.
 वि-चिन्त्य के १, ६; कौ २, १४९^०;
 त्रिता ६, ८३; २, २९; ३१; अक्षि
 ४५; सुसु ७.
 वि/चूर्णं
 वि-चूर्ण्य महा ५, ७५; सु २, २, ४२.
 वि/चूर्त्
 वि-चूर्त्य मना १, ४९^१.
 वि-चूर्तस्- -त्तस: गो ९, १२.
 वि/चेष्ट, विचेष्टते मैत्रि ६, ३०; करु
 २४; मित्र ६, ११; विचेष्टति क
 २, ३, १०^१.
 विचे^१ दे १४.
 वि/च्छद्>च्छादि, विच्छादयन्ति

छां ८, १०, २; ४.
 वि/च्छिद्, विच्छिन्नात् वृ १, ५,
 १४; वरु १.
 विच्छेत्स्यते छां ६, ७, १.
 विच्छिद्येते इ १६: १४.
 वि-च्छिन्न-
 विच्छिन्न-ग्रन्थि- -ग्रन्थय: अक्ष
 ४, ११.
 विच्छिन्न-शरद्-भक्षां(प्र-अ)-
 श- -विलय- -न्यम् वरा ४, १३.
 वि/च्छो>च्छा>च्छायि, विच्छा-
 ययति वृ ४, ३, २०.
 ✓विज्
 वेग- -गम् गी ५, २३; -गेन अध्या
 ५४; यो १, ३३; ३४.
 वेग-तस्स(>:) १यौत ३८; राप
 ४, २३; योशि १, ९६; वरा ५,
 ४४.
 वेग-वत्-
 वेगवत्-तर- -र: वउ २,
 १७.
 वि-जग्निवस्- वि/हृत् द.
 वि/जन्>जा, विजायते मुद्र ३;
 व्यजायत क २, १, ७; अव्य १;
 विजायेत जाद २, ६^१.
 वि-जायमान- -न: मना १, २९^०;
 सुता १, ११९^०.
 वि-जन- -न: ते १, २३; -ने शि २,
 २०; ७, १२८; तारा ८३: १२;
 १३.
 १-३वि-जय-, वि-जमिन्- वि/जि द.
 वि-ज(रा)>र- -र: छां ८, १, ५, ७, १;
 ३; मैत्रि ६, २५; ७, ७; -नम् म
 ५, ४; मैत्रि ६, ४; २५; ७, ५.
 ?विजरन्म मैत्रि ६, १३.

a) =भूमिकाविशेष- वा विचार- वा । b) वैपश् यद्र । c) तैश्चा ७, ४, १ । d) इत्युश्च शश्रेति विकरण-
 द्वयम् (तु. पा ३, १, ८५) । e) °चिन्त्य इति तैश्चा ३, १२, ७ । f) अनिचि° इति ध्यान., J.C. । g) 'चिन्तयेत्' इति
 ध्यान. । h) 'विदित्वा' इति ध्यान., शाश्चा ४, १४ । 'विजित्वा' इति ध्यान. । i) मा ३२, १२ । 'विदुष्य' इति नादी. ।
 j) °ते इति ध्यान. संदि. । k) =बीजविशेष- । l) °ज्ज° इति शब्दा. संदि. । m) 'एव जातः' इति मा ३२, ४ ।
 n) पा. १ (तु. राती.) वि/ज्>वि-जरण->-णम् इति शोध: द. ।

वि-जाति-

विजातीय- -यम् ते ३, ४७; ५, ८१.

विजातीय-तिरस्कृति- -तिः ते १, १८.

विजातीय-द्वैता(त-आ)पत्ति-

-सिः सांख्ये १, २२.

विजातीय-विशेष-विचर्जित-
-तम् त्रिवि ७, १७.

वि-जान- , वि-जानन्- वि/ज्ञा द्र.

वि-जायमान- वि/जन् द्र.

वि/जि, > जिगीप्, विजयति* त्रिवि
७, २९^b.

विजिग्ये के ३, १; विजेत्यध्वे शौ
५१: ४.

व्यजिगीपन्त शौ ५१: २.

वि-जय- -यः के ३, १; गी १८,

७८; -यम् पा ७, २; शि ६,

१५७; गी १, ३३; -यात् महा ५,

७६; -याय व ४६०: २०^६; -ये

के ३-४, १.

विजय-काम-कामुक-खण्ड-

लता- -ते सार २६५: ४.

विजया(य-आ)त्मक-क-हे १२.

२वि-जय^६- -यः राप् ४, ३७.

३वि-ज(य>)या^६- -या व ४२७:

८; -याम् दे १०; व ४६६: ४.

वि-जयिन्- -यी त्रिता ३, २३; २६.

वि-जित- -तम् त्रिना २, ५२; शां

१, ३; १२^१; महा ५, ७८; योशि

१, ३९; जाद ३, १३; सु २, २,

४०; -ताः योशि १, ४८.

विजिता(त-आ)त्मन्- -त्मा गी

५, ७.

√विजितीय^६

विजितीयत्- -यन्(इन्^६)

आपे ७: २.

विभिते(त-इ)न्द्रिय- -यः त्रिना

२, १०३; योशि १, २४^b; ४४;

रुजा २, १; गी ६, ८.

वि-जित्य कौ ४, २०; शा ११; शि

७, १०.

वि-जेप-

विजेप-कृत्- -कृत् व ४६०:

२१९^६.

वि-जिघत्स- वि/घप् द्र.

वि-जिज्ञासा-, वि-जिज्ञासितव्य-,

वि-जिज्ञास्य- वि/ज्ञा द्र.

वि/जृम्भ् > जृम्भि, विजृम्भते वृ १,

१, १; महा ६, ६२; अक्ष २, ३६;

सौ ३२; स्व ६०: २.

विजृम्भयति त्रिता १, ५६.

वि-जृम्भण- -णे योचू २५.

वि-जृम्भयत्- -यन् सं १७.

वि-जृम्भित(त>)ता- -ताः अक्ष २, ७.

वि/क्षप्, > क्षपि, विक्षपयिष्यामि वृ

२, १, १५; कौ ४, १८.

वि-ज्ञस-

विज्ञस-काम-

विज्ञसकामिक- -कम् वि २४

वि/ज्ञा, > जा, ज्ञापि, जिज्ञास, वि-

जानाति क २, १, ३; ऐ ५, १;

छां १, २, ९; ३, १३, ७; ७, ७,

१^१; १३, १; १७, १; १८, १^१; २४,

१^१; ८, ६, ३; ७, १; ३; ११, १;

१२, ६; वृ १, ५, ३, २, ४, १४; ३,

२, ४; ४, ३, ३०^१; ४, २; ५, १५;

वृ २, ३; सुभा ४; शु २, १; ज्या

४२; नाप ६, १०; महा ४, ७९;

योशि २, ४; ६, २४; अध्या ४६;

क २८; ३^१; वर ३, ३३; इ १०:

२०; मिशि ३८२: १५; पित्र १,

२; विजानीतः क १, २, १९;

गी २, १९; विजानते स्फ १३;

पित्र ६, १३; विजानन्ति ते १,

४४; विजानासि महा ४, १;

विजानीथः छां ८, ८, १; वि-

जानामि छां ४, १०, ५^१; वृ ४, ५,

१४; के २, २; विजानीमः के १,

३; विजानीहि के ३, ३; ७; ११;

छां ६, ३, ४; ४, ७; ८, १; ३^१; ५;

कौ ३, १; त्रिना १, २; शा २, १^१;

पित्र १, ८; २, ५; ३, ९; ४, ३, ९;

५, ३; ६; ९; ६, ६-८; व्यजानात्

तै ३, २-६, १; व्यजानत के ३,

२^१; विजानीयात् वृ २, ४, १५^१;

४, ३, ३०; ३; ४, १२; ५, १५^१;

गी ३, ४४; कौ ३, १९^१; व ३,

१२; ते १, २, ५; व्रवि ४३; त्रिना

२, १२०; १५०; योशि ६, ६९;

शा २२; सौ २, १८; ऊ ६४: ४;

गोच ६७: २३; सार २७७: २०;

वृ ३, १; भव २, १५; १७;

विजानीरन् छां ७, १३, १^१;

विजानीयाः वृ ३, ४, २; क २,

२, १४; कौ ३, १^१; जा २; वि-

जानीयाम् राठ ३, १; गी ४, ४.

विजने वृ २, ३; विजज्ञौ के ३,

२; छां ६, ७, ६^१; कौ ४, १८^६;

२०^१;^६ विज्ञास्यति छां ६, ७,

३; विज्ञास्वामः प्र १, २; स्व-

ज्ञासिषुः छाग २५: १५; व्य-

ज्ञासिष्ठ वृ ५, २, १^१-३^१; व्य-

ज्ञासिष्म वृ ५, २, १-३.

विज्ञायते वृ ६, २, ७; सौ १०;

१६; १९; ३७; शारी ५; व २^१;

नाप ५, २७; नाठ २, १; ३, ६;

सिशि ३८३: १४.

विज्ञापयति छां ७, २, १^१;

a) पाथा. पर. उसं. (पा १, ३, १९)। b) °ते इति निमा.। c) छ १०, ८४, ४। d) = दाशरथि-मन्त्रविशेष-।
e) = देवोविशेष-। f) पा ३, १, ८। g) पा. ? यनि. शोधः द्र.। h) भवि° इति अथ्या.। i) छ १०, ८४, ५।
j) 'व्यजानन्त' इति निमा.। k) 'विद' इति शांभा ५, १। l) 'यात्' इति आन.। m) 'जे' इति आन., शांभा ६,
१९; ; °जिज्ञौ इति अथ्या.। n) 'जे' इति शांभा ६, २०^१।

विज्ञापयतु छां ६, ५, ४; ६, ५;
८, ७; ९, ४; १०, ३; ११-१५, ३;
वृ७ ७, १.

व्यज्ञापयिष्यत् छां ७, २, १.

विजिज्ञासे छां ७, १६-२३, १;
विजिज्ञासस्व तै३, १-५, १; अथ्य
१; विजिज्ञासीत कौ ३, ८^०.

वि-जान- -नः आप् ९; ६^०.

वि-जानत्- -नतः ई७; क२, १, १५;
छां ७, २६, १; गौ २, ४६; -नता
अत्र ४, ५५; यो २, १४; -नताम्
के २, ३; -नत् सुं ३, १, ४; छां ७,
१५, ४; १७, १; २५, २; वृ ४, ३,
३०; शा३; -नन्तः गौ ४, ४६.

वि-जिज्ञासा- -सा वृ ३, १, १.

वि-जिज्ञासितम्, व्या- -व्यः छां ७,
२३, १; ८, ७, १; ३; मै ५, ८;
-व्यम् छां ७, १६-१७, १; २२,
१; ८, १, १; २; वृ ३, १; -व्या
छां ७, १८-२१, १.

वि-जिज्ञास्य- -स्यम् वृ १, ५, ८; १^०.

वि-ज्ञात- -तः वृ ९, १६; -तम्
के २, ३; सुं १, १, ३; छा ६, १,
३-६; वृ १, ५, ८^०; शां २, १; पत्र
२; रह २७; पं २९; ३०; गोपू
२; ३; नाटू ३, ७; -ते सुं १, १,
३; वृ ४, ५, ६; शा २, १; सर ३,
३१.

विज्ञात-वस्व- -वः योशि ५,
६२^०.

विज्ञात-व्रह्म-तत्त्व- -त्वस्य
अध्या ४८^०.

विज्ञात-व्रह्म-भाव- -वः अध्या
४८.

विज्ञात-मात्र- -त्रेण योशि ३,
१^०; ६, १; अक्षि १; जाद १, ३.

विज्ञात-यस्तु- -स्तुना सु २, २,
३१.

विज्ञात-विशेष- -वः महा ५,
१७४; -व्याः अत्र ४, ११.

वि-ज्ञातयत्- -यान् महा २,
१२.

वि-ज्ञातव्य- -व्यम् कौ १, ७; २,
१५^०; ३, ५^०; ६^०; -व्यानि शां
१, ४; -व्ये महा ५, ६३.

वि-ज्ञाति- -तेः वृ ३, ४, २; ४,
३, ३०.

वि-ज्ञातुम् के ३, ६; १०; १आ ५;
गौ ११, ३१.

वि-ज्ञातृ- -ता छां ७, ८-९, १;
वृ १, ५, ८; ३, ७, २३^०; त्रिता
५, १; -ताम् वृ २, ४, १४; ३,
४, २; ४, ५, १५; कौ ३, ८^०;
१आ १०; -तुः वृ ४, ३, ३०;
-तृ वृ ३, ८, ११^०.

वि-ज्ञान- -नम् तै २, ५, १^०; ६,
१; ३, ५, १^०; ऐ ५, २; छां ७,
७, १^०; २^०; १७, १^०; २६, १; वृ २,
१, १७; ३, ७, २२^०; ९, २८, ७;
गौ ४, ४५; ४८; ५१; मै ५, ७^०;
मैत्रि ६, ७^०; १३; त्रिवि २०; मना
२, ७९^०; ८०^०; कौ ३, ३^०;
म २; सुबा ९^०; शां २-३, १;
महा २, ९; ६, ६१; १आ ७; यो
३, ३१; अद्वै २३; आप् ७:२२;
भव ५, १८; अवि २०; सांस्
१, ८९; गौ १८, ४२; -नस्य छां
७, ७, २; मैत्रि ६, १३; सु १, १,
२८; -नात् सुं २, २, १; तै ३,
५, १; छां ७, ७, २^०; ८, १; वृ ३,
७, २२; गौ ४, ५२; मना २,
७९^०; अध्या ५०; -नाय वृ

२, ४, १३; -ने वृ ३, ७, २२; गौ
४, ५०; ५१; सुबा ५^०; पै ४, १;
-नेन सुं २, २, ७; तै ३, ५, १;
छां ७, ७, १^०; वृ २, १, १७; ४,
५; मना २, ७९^०; गोपू २.
२विज्ञान- -नः मैत्रे ३, ३; कठ
१८.

विज्ञान-घन- -नः वृ २, ४, १२;
सुबा ११; १५^०; स्क १; गो७
६३; -नम् ना ४; सि ६, १९.

विज्ञानघन-स्वरूप- -व्यम्
त्रिवि ७, ८; सि ६, १८.

विद्वान-चिन्मात्र-स्वभावा-
(व-आ)तन्- -त्मा सता १,
३०^०.

विज्ञान-दा(वृ>)त्री- -त्री
सिधि ३८०: १२.

विज्ञान-नियन्त्रि- -न्त्रिः जाद
१, १८.

विज्ञान-पति- -तिः तै १, ६, २.
विज्ञान-मनस- -नसी वसू २,
३, १५.

विज्ञान-मय- -यः सुं ३, २, ७;
तै २, ४, १; वृ २, १, १६; १७;
४, ३, ७; ४, ५; २२; सुबा ५; सता
१, १६; सू १८; ग ५; -व्यम् तै
२, ८, ५; ३, १०, ५; म २, २१;
-यात् तै २, ५, १; -येन म२, २८.

विज्ञानमय-कोश- -शः पै
२, २२.

विज्ञान-मात्र- -त्रम् अत्र ३,
२०; सांस् १, ४२; -त्रेण शु १,
१३; योशि २, १; ६; ६, २५; अत्र
१, ४; अद्वैमा २.

विज्ञानमात्र-रूप- -पः तै ३,
३१.

a) कर्तृरि वाः प्र. उत्सं. (पा ३, १, १३७) । b) 'वि-ज्ञान(?)' इति वे. । c) ज्ञा° इति अथ्या. ।

d) ह्यभावस्य इति अथ्या. संटि. । e) °ज्ञान° इति अथ्या. । f) °व्यका° इति अथ्या. ।

g) तैआ १०, ६३, १^० । h) तैआ १०, ६४, १ । i) तैआ १०, ६३, १ । j) °नघनः चिन्मात्रस्वरूपः

आत्मा इति आन. ।

विज्ञान-रूप- -पम् वड ४, २;
-पाय गोपू ३५.
विज्ञान-वत्- -वत्तः छां ७, ७,
२; -यत्ताम् छां ७, ८, १; -वान्
क १, ३, ६; ८; मैत्रि ६, १३; यो
२, १^१; वड ६, ५३.
विज्ञानवती- -ती मै ५,
५^१; मैत्रि ६, ५.
विज्ञान-वश-
विज्ञानवश-तस(>) महा
५, ६६.
विज्ञान-विद्- -विदाम् अक्ष
३, २०.
विज्ञान-विष्वस्त- -स्तम् महा
४, २७; वरा ३, १७.
विज्ञान-संपन्न- -न्नाः वरा २,
११.
विज्ञान-सहित- -तम् गौ ९, १.
विज्ञान-सारथि- -थिः क १, ३,
९; भव २, १२.
विज्ञान-स्पन्दित- -तम् गौ ४,
४७.
विज्ञाना(न-अ)स्मन्- -स्मा प्र
४, ९; ११; पै २, २५; १आ १;
२आ २; राड ४, ४७; यो ३, २७.
विज्ञाना(न-अ)दि-भाव- -वे
मस् २, २, ४४.
विज्ञाना(न-अ)दि-विवर्जित-
-तः ले ४, ७४.
विज्ञाना(न-अ)नन्द- -न्दः वड
६, ५३.
विज्ञानानन्द-धन-स्वरूपा-
(प-अ)नन्त-सोपान-मण्डल-
-लम् सि ६, २७.
विज्ञाना(न-अ)र्थ- -र्थम् सुं १,
२, १२.

विज्ञाना(न-अ)विज्ञान- -ने
दे १.
वि-ज्ञाप्य नाप २.
वि-ज्ञाय प्र ३, १२^१; तै ३, २-५, १;
वृ ४, २१; अना १; नाप ३,
८६; ६, १; अता ३; महा ५, ७१;
योशि २, २१; अक्ष ४, ३७; अष्या
२७; पत्र २; त्रिता १, ७९; त्रि
७; रुह ३५; मवा ३; वरा ४,
३३; शां २३; सूता ६, ५; शि
१, १६; हे ९; ११; सांका ७१;
गौ १३, १८.
वि-ज्ञेय, या- -यः मां ७; धे ५, ९;
गौ ३, ३४; कौ १, ७; टपू ४, ७;
रुड १, १२; ते १, ३४; नाप ३,
३८; ८, २०; त्रिमा २, २७; १६२;
रार ५, १३; राड ३, १; पै ३, ३;
४, १७; महा ५, ४३; यो ३, ३३;
जाद ४, २९; त्रिता ५, १; वरा
२, ३०; ३९; शा १६; शि १,
२३; २, १२; ५, ४१; कालि ४०२;
८; वड १, १६; २, ३८; ४, ४७;
५, ४१; भव १, ३४; २, ३६;
-यम् गौ ४, ८८; ध्या ५४; योशि
१, १४३; दत्ता १, २; योरा १०;
सु २९४; २२; वि ११; शि ३,
१४; ४, ३; ६, १९२; २८९; -या
गौ ४, ९; शां १, ४; विवा ४;
-याः रार २, ३६; शां १, ४; रुजा
१, ९; -याव गौ ४, ९०; -यानि
गौ ४, ९०; युवा ६.
वि-ज्य- -ज्यम् नौ २, १२९^०.
वि-ज्यर- -रः महा ६, १४; १५; ६६;
६७; -रम् अक्ष १, ४१.
विज्वर-स्व- -स्वम् अक्ष १, ४२.
चिद्व २विश-इ.

चिटप^{८८}-
चिटप-शाखिन्- -खिनः रुह १४.
चि(<)वि^{१०})डाल^{११}- -लम् वृजा
४, ६.
चिडू(<)व^{१०})र^{१२}-
वेह्व^{११}र^{१०}- -र्थम् सिशि ३८२; १८.
वेह्व^{११}-प्रदान-
वेह्व^{११}प्रदान-तस(>) शि
६, ९८.
वेह्व^{११}-वर्ण- -र्णम् ध्या ९३, ९.
चित(धा)>थ- -थम् ते ५, ५१; -थैः
गौ २, ६; ४, ३१.
चैतथ्य- -थम् गौ २, १; ३;
९-११.
चितथा(ध-अ)भिनिवेश- -शः भव
५, ३.
चि/तन्, वितन्वते सार २६२; ७.
चित्त, ता- -तः सुं ३, १, ६; वृ ४,
४, ८; यो ३, ३१; -तम् छां १,
१०, ७; मना १, ४९^१; ११^१; त्रिवि
७, ४९^१; पा १, ४; सु २९३; १४९^१;
१७९^१; लिं ३०२; ९९^१; -तस्य क
२, १, ३; -ताः त्रिमा २, ७६; गौ
४, ३२; -ताम् १संन्या २, ५५.
वितत-क्रम- -साद् अना ३०^१.
विततो(त-उ)दय- -ये महा ५,
१०८^१.
वित्तय ए ४; पा १, ४; ८, ४; क ४
१; कथु २, ३.
वितन्वत्- -न्वत् पा २, ५.
वितन्वा(न>)ना- -ना ते १, ४, १;
व ४६६; ११९^१.
वितान- -नम् पा ४, ७; १०; ६, ३;
८, ७.
वितान-कलश- -शैः शि ६,
१८३.

a) °ज्ञात^० इति अच्चा. । b) 'विज्ञानाति' इति निता. यनि. शोधः द्र. (द्र. नाउ.) । c) मा १६, १- ।
d) व्यु. ! । e) वृ. गपू. ४५७०^१ । f) व्यु. ! °माज्जर- । g) पा ४, ३, ८४ । h) मा ३२, १२ । i) तैमा ३, १२,
३, ४ । j) श्र ९, ८३, १ । k) 'तुल्यविक्रमः' इति आन., 'विततः क्रमः' इति अच्चा. । l) वृ. गपू. ४५७०^१ ।
m) तैमा ७, ४, १ ।

विज्ञापयतु छां ६, ५, ४; ६, ५;
८, ७; ९, ४; १०, ३; ११-१५, ३;
वृ३ ७, १.

व्यज्ञापयिष्यत् छां ७, २, १.

विजिज्ञासे छां ७, १६-२३, १;
विजिज्ञासस्व तै३, १-५, १; अथ्य
१; विजिज्ञासीत कौ ३, ८^{१०}.

वि-जान- -नः आर्षे ९; ६^{१०}.

वि-जानत्- -नतः ई७; क२, १, १५;
छां ७, २६, १; गौ २, ४६; -नता
अत्र ४, ५५; यो २, १४; -नताम्
के २, ३; -नत् सुं ३, १, ४; छां ७,
१५, ४; १७, १; २५, २; वृ ४, ३,
३०; शा ४; -नन्तः गौ ४, ४६.

वि-जिज्ञासा- -सा वृ ३, १, १.

वि-जिज्ञासितव्य, ष्या- -व्यः छां ७,
२३, १; ८, ७, १; ३; मै ५, ८;
-व्यम् छां ७, १६-१७, १; २२,
१; ८, १, १; २; वपू ३, १; -व्या
छां ७, १८-२१, १.

वि-जिज्ञास्य- -स्यम् वृ १, ५, ८; १^१.

वि-ज्ञात- -तः वृ ९, १६; -तम्
के २, ३; सुं १, १, ३; छां ६, १,
३-६; वृ १, ५, ८^१; शां २, १; पत्र
२; रह २७; पं २९; ३०; गोपू
२; ३; नापू ३, ७; -ते सुं १, १,
३; वृ ४, ५, ६; शा २, १; सर ३,
३१.

विज्ञात-तस्व- -स्वः योशि ५,
६२^{१०}.

विज्ञात-ब्रह्म-तस्व- -स्वस्य
अध्या ४८^८.

विज्ञात-ब्रह्म-भाव- -वः अध्या
४८.

विज्ञात-मात्र- -त्रेण योशि ३,
१^१; ६, १; अक्षि १; जाद १, ३

विज्ञात-यस्तु- -स्तुना मु २, २,
३१.

विज्ञात-विज्ञेय- -यः महा ५,
१७४; -याः अत्र ४, ११.

वि-ज्ञातयत्- -यान् महा २,
१२.

वि-ज्ञातव्य- -व्यम् कौ १, ७; २,
१५^१; ३, ५^१; ६^१; -व्यानि शां
१, ४; -व्ये महा ५, ६३.

वि-ज्ञाति- -तेः वृ ३, ४, २; ४,
३, ३०.

वि-ज्ञातुम् के ३, ६; १०; १आ ५;
गौ ११, ३१.

वि-ज्ञातृ- -ता छां ७, ८-९, १;
वृ १, ५, ८; ३, ७, २३^१; त्रिता
५, १; -ताम् वृ २, ४, १४; ३,
४, २; ४, ५, १५; कौ ३, ८^१;
१आ १०; -तुः वृ ४, ३, ३०;
-तृ वृ ३, ८, ११^१.

वि-ज्ञान- -नम् तै २, ५, १^१; ६,
१; ३, ५, १^१; ऐ ५, २; छां ७,
७, १^१; २^१; १७, १^१; २६, १; वृ २,
१, १७; ३, ७, २२^१; ९, २८, ७;
गौ ४, ४५; ४८; ५१; मै ५, ७^१;
मैत्रि ६, ७^१; १३; ऋषि २०; मना
२, ७९^१; ८०^१; कौ ३, ३^१;
श्र २; सुबा ९^१; शां २-३, १;
महा २, ९; ६, ६१; १आ ७; यो
३, ३१; अद्वै २३; आर्षे ७; २२;
भव ५, १८; अवि २०; सांस्
१, ८९; गौ १८, ४२; -नस्य छां
७, ७, २; मैत्रि ६, १३; सु १, १,
२८; -नात् सुं २, २, १; तै ३,
५, १; छां ७, ७, २^१; ८, १; वृ ३,
७, २२; गौ ४, ५२; मना २,
७९^१; अध्या ५०; -नाथ वृ

२, ४, १३; -ने वृ ३, ७, २२; गौ
४, ५०; ५१; सुबा ५^१; पै ४, ९;
-नेन सुं २, २, ७; तै ३, ५, १;
छां ७, ७, १^१; वृ २, १, १७; ४,
५; मना २, ७९^१; गोपू २.
२विज्ञान- -नः मैषे ३, ३; कठ
१८.

विज्ञान-घन- -नः वृ २, ४, १२;
सुबा ११; १५^१; स्क १; गौ ४
६३; -नम् ना ४; सि ६, १९.

विज्ञानघन-स्वरूप- -पम्
त्रिषि ७, ८; सि ६, १८.

विज्ञान-चिन्मात्र-स्वभावा-
(व-आ)शतम्- -रमा ससा १,
३०^१.

विज्ञान-दा(तृ>)त्री- -त्री
सिषि ३८०; १२.

विज्ञान-नियत्ति- -त्तिः जाद
१, १८.

विज्ञान-पति- -तिः तै १, ६, २.

विज्ञान-मनस्- -नसी प्रस् २,
३, १५.

विज्ञान-मय- -यः सुं ३, २, ७;
तै २, ४, १; वृ २, १, १६; १७;
४, ३, ७; ४, ५; २२; सुबा ५; ससा
१, १६; सू १८; ग ५; -व्यम् तै
२, ८, ५; ३, १०, ५; म २, २१;
-यात् तै २, ५, १; -येन म २, २८.

विज्ञानमय-कोश^१- -शः पै
२, २२.

विज्ञान-मात्र- -त्रम् अत्र ३,
२०; सांस् १, ४२; -त्रेण शु १,
१३; योशि २, १; ६; ६, २५; अत्र
१, ४; अद्वैमा २.

विज्ञानमात्र-रूप- -पः तै ३,
३१.

a) कर्तरी षाः प्र. उत्सं. (पा ३, १, १३७) । b) 'वि-ज्ञान(?)' इति वे. । c) ज्ञा^० इति श्रद्धा. ।

d) 'ह्यभावस्य इति श्रद्धा. संटि. । e) 'ज्ञान^० इति श्रद्धा. । f) 'व्यका^० इति श्रद्धा. ।

g) तैआ १०, ६३, १^१ । h) तैआ १०, ६४, १ । i) तैआ १०, ६३, १ । j) 'नघनः चिन्मात्रस्वरूपः

आत्मा इति आन. ।

विज्ञान-रूप- -पम् वउ छ, २;
 -पाय गोपू ३५.
 विज्ञान-वद- -यतः छां ७, ७,
 २; -वताम् छां ७, ८, १; -यान्
 क १, ३, ६; ८; मैत्रि ६, १३; यो
 २, १; वउ छ, ५३.
 विज्ञानवती- -ती मै ५,
 ५; मैत्रि ६, ५.
 विज्ञान-यदा-
 विज्ञानवदा-तस(>:) महा
 ५, १६.
 विज्ञान-विद्- -विदाम् अक्ष
 ३, २०.
 विज्ञान-विष्वस्त- -स्तम् महा
 छ, २७; वरा ३, १७.
 विज्ञान-संपन्न- -घ्राः वरा २,
 ११.
 विज्ञान-साहित- -तम् गी ९, १.
 विज्ञान-सारथि- -थिः क १, ३,
 ९; भव २, १२.
 विज्ञान-स्पन्दित- -तम् गी छ,
 ४७.
 विज्ञाना(न-ञा)रमन्- -रमा प्र
 छ, ९; ११; पै २, २५; १आ १;
 २आ २; राउछ, ४७; यो ३, २७.
 विज्ञाना(न-ञा)दि-भाव- -वे
 मयू २, २४४.
 विज्ञाना(न-ञा)दि-विचर्जित-
 -तः ते छ, ७४.
 विज्ञाना(न-ञा)नन्द- -न्दः वउ
 छ, ५३.
 विज्ञानानन्द-घन-स्वरूपा-
 (प-ञा)नन्त-सोपान-मण्डल-
 -रुम् सि ६, २७.
 विज्ञाना(न-ञा)यै- -यैम् सुं १,
 २, १२.

विज्ञाना(न-ञा)विज्ञान- -ने
 दे १.
 वि-ज्ञाप्य नाप २.
 वि-ज्ञाय प्र ३, १२; ते ३, २-५, १;
 वृ छ, ४, २१; अना १; नाप ३,
 ८९; ६, १; अता ३; महा ५, ७१;
 योशि २, २१; अक्षछ, ३७; अथ्या
 २७; पत्र २; प्रिता १, ७९; त्रि
 ७; रह ३७; मया ३; वरा छ,
 ३३; शां २३; सूता ६, ५; शि
 १, १६; हे ९; ११; सांक्र ७१;
 यो १३, १८.
 वि-ज्ञेय, या- -यः मां ७; ये ५, ९;
 गी ३, ३४; कौ १, ७; नृपू छ, ७;
 वउ १, १२; ते १, ३४; नाप ३,
 ३८; ८, २०; त्रिब्रा २, ७; १६२;
 राउ ५, १३; राउ ३, १; पै ३, ३;
 छ, १७; महा ५, ४३; यो ३, ३३;
 जाद छ, २९; प्रिता ५, १; वरा
 २, ३०; ३९; शा १६; शि १,
 २३; २, १२; ५, ४१; कालिछ ०२;
 ८; वउ १, १६; २, ३८; छ, ४७;
 ५, ४१; भव १, ३४; २, ३६;
 -यम् गी छ, ८८; घ्या ५७; योशि
 १, १४३; दत्ता १, २; योरा १०;
 सु २९७; २२; वि ११; शि ३,
 १४; छ, ३; ६, १९२; २८२; -या
 गी छ, ९; शां १, ४; विद्या छ;
 -याः राउ २, ३६; शा १, ४; रुजा
 १, ९; -यान् गी छ, ९०; -यानि
 गी छ, ९०; सुभा ६.
 वि-ज्य- -ज्यम् गी २, १२९.
 वि-ज्वर- -रः महा ६, १४; १५; ६६;
 ६७; -रम् अक्ष १, ४१.
 विज्वर-त्व- -त्वम् अक्ष १, ४२.
 विद् २विश्-द्र.

विटप^२-
 विटप-शाखिन्- -खिनः रह १४.
 वि(<)वि^१डाल^१- -रुम् वृजा
 छ, ६.
 विडू(<)द^१र^१-
 वैदूयै^१- -यैम् सिशि ३८२; १८.
 वैदूयै-मदान-
 वैदूयैप्रदान-तस(>:) शि
 ६, ९८.
 वैदूयै-वर्ण- -र्णम् घ्या ९३, ९.
 वि-त(पा>)थ- -थम् ते ५, ५१; -थैः
 गी २, ६; छ, ३१.
 वैतथ्य- -थ्यम् गी २, १; ३;
 ९-११.
 वितथा(थ-ञा)भिनियेश- -शः भव
 ५, ३.
 वि/तन्, वितन्यते सार २६२; ७.
 वितन्, ता- -तः सुं ३, १, ६; वृ छ,
 ४, ८; यो ३, ३१; -तम् छां १,
 १०, ७; मना १, ४९; ११९; त्रिवि
 ७, ४९; पा १, ४; छ २९३; १४९;
 १७९; सि ३०९; ९९; -तस्य क
 २, १, २; -ताः त्रिब्रा २, ७६; गी
 छ, ३२; -ताम् १सन्त्या २, ५५.
 वितत-क्रम- -माद् अना ३०.
 विततो(त-उ)दय- -ये महा ५,
 १०८.
 वि-तस्य ए छ; पा १, ४; ८, ४; कर
 १; कथु २, ३.
 वि-तन्वत्- -न्वम् पा २, ५.
 वि-तन्वा(न>)ता- -न्ना ते १, ४, १;
 व छ ६६; ११९.
 वि-तान- -नम् पा छ, ७; १०; ६, ३;
 ८, ७.
 वितान-कलश- -शैः शि ६,
 १८३.

a) °ज्ञात° इति शब्दा. । b) 'विज्ञापयति' इति जित्वा. यति. शोषः द्र. (द्र. नाउ.) । c) मा १६, १० ।
 d) व्यु. १ । e) द्र. गपू. पृ. ७०५ । f) व्यु. १ =मार्जार- । g) पा ३, २४ । h) मा ३२, १२ । i) तैत्रा ३, १२,
 ३, ४ । j) छ ९, ८३, १ । k) 'तुल्यविश्रमः' इति ध्यान., 'विततः क्रमः' इति शब्दा. । l) द्र. गपू. पृ. ५४९ ।
 m) तैत्रा ७, ४, १ ।

वि-तन्तु-

वितन्तु-ता- -ता ते ६, २८.

वि-तन्वत्-, वि-तन्वान- वि-^१/तन् द.वि-^१/तप्वितपत्- -पन् वृप् २, ११५^१.वि-^१/तर्क

वितर्क- -र्काः योस् २, ३४.

वितर्क-याधन- -ने योस् २, ३३.

वितर्क-विचारा(र-ञ्च)नन्दा-

(न्द-ञ्च)स्मिता(ता-ञ्च)नुगम-

-मात् योस् १, १७.

वितल^१- -लम् राधा १, ३.

वितल-लोक-ज्ञान- -नम् शां १,

७, ५२.

वितस्ता^१- -स्तपा मना १, १३५^१.वितस्ति^१- -स्तयाम् मना २, १३,२१५^१.

वितस्ति-प्रमित- -तम् योशि १, ८१.

वि-तान- वि-^१/तम् द.वि-^१/तुद्वितुद्- -दस्य मना २, ६७५^१.वि-^१/तुद्, व्यतृणत् क २, १, १.

वि-तृ(ण्णा>)ण्ण-

वैतृण्य- -ण्यम् नाप ३, १२.

वित्त-, वित्ति- ✓विद्(लाभे) द.

वित्ते^१ नी १, ३.

✓विद्(शाने), > वेदि, विविदिप्,

वेति श्वे ३, १९; गौ १, २२; अ

१; घ्या ८१; योत् १२७; नाप

९, १४; योच् ३६; पैष्ठ, १४, महा

२, १९; योशि ५, ४२; वेद ई ११;

१४; के २, २; ३; ४; ६; ९; क १, २,

२४; २, १, ५; प्र ३, ११; ६, ६;

सुं १, २, १३; २, १, १०; ३, २, १;

९; मां २-११; १२; तै १, ३, ४;

५, ३; २, १, १; ५-६, १; ९,

१; ३, ६-९, १; १०, २; ६; छां १,

१, १०; ३, १; ६, ७; १३, ४; २,

११-२०, २; २१, ४; २४, १६;

३, ६-११, ३; १२, ९; १३, १-५;

६; ७; १५, २; १६, ७; १८, ३-५;

६; ४, १, ४; ६; ३, ८; १५,

२-४; ५, १, १-५; १०, १०; ६,

१४, २; ७, ५, २; ८, १२, ४; ५;

वृ १, २, १, ५; ७; ३, ७; १, ६;

१८; २२; २५; २६; २७; २८;

४, १; ५; ६; ७; १०; १७; ५,

१; २; १२; २१; २, १, १९; ३, १;

३; ४; ३, ६; ४, ३; ६; ३, २; ७,

३; ५-९; ११-१४; १६-२३; ४,

३, २१; ४, २४; २५; ५, ४; ७;

५, १, १; ३, १; ४, १; ५, ३; ४;

७, १; ११, १; १२, १; १३, १-४;

१४, १; २; ३; ६, १, १-६;

१४; गौ १, ५; सूता ३, ५१;

विदन्ति सार २३१ : २२;

सिधि ३८० : २; ४; विदुः क

२, ३, २; ९५; सुं २, २, ९; तै

२, ६, १; छां ५, १०, १; ६, ९,

२; १०, १; २; ७, २५, २; वृ १, ३,

२; ३, ७, ४; १०; १५; ४, ४, १४;

१८; ५, १, १; ६, २, १५; १६; श्वे

३, १; १०; १३५; क, ८५;

१७५; २०; ५, ६; १४; गौ २, ३४;

मना १, ३५; अ ३, ५; अना २७;

वेत्सि मैत्रि २, ३; वेत्थ के २, १;

प्र ६, १; छां ५, ३, २; ३; ७,

१, १; वृ ३, ७, १; ९, १९;

६, २, २; गौ ४, ५; वेत्ति

आथे २१; अप्या ६७; १भव

२७; वृत् ३, १९; वेद के २, १;

२; प्र ६, १; ७; छां ३; १५, २;

४, ४, २; ५, ३, ५; वृ ३, ७, १;

९, १०-१७; १९; ४, २, १; ६, २,

२-४; श्वे ३, ८५^m; २१; कौ १,१; त्रिविध, ५५^m; मुद्र १, ८५^m;पा ७, ५५^m; रशिमं १५५^m;विग्रहे मना १, ५५^m; ६५^m;७५^m; २, २०५^m; वृत् ४, १३;त्रिवि-७, ३९^m; रार २, ८६^m; स

२२; त्रिता ३, ४; दे७; ग १०;

ऊ ६३ : ११; तुल ७० : ११;

विष्णु के १, ३; वृ ४, ४, १४;

वृत् ९, १६; गौ २, ६; विष्णु

व ४६० : २२५; विद्दि के १,

४-८; क १, १, १४; ३, ३; सुं २,

२, २; ३; छां १, ८, ७; ८; ६,

११, ३; मैत्रि ७, ११; ते १, ५;

नाप ६, १; मं १, ३, १; अता ८;

राज १, २; वित्तम् २संन्या १७;

२५; वेदानि छां १, ८, ७; ८;

विदाम श्वे ६, ७; अवेत् वृ १,

४, ५; ९; १०; अवेदम् ए २,

५५^m; विद्यात् क २, ३, १७; छां

२, ९, २; २४, २; ५, २; ३; ४;

वृ १, ५, २; ३, ७, १; ९, १०-१७;

श्वे ४, १०; गौ १, २४; अ २;

कौ ३, ८; वृत् ३, २; वृत् २,

११; ते १, २८; विद्युः के १,

a) तैत्रा ३, १०, १, २। b) व्युः = लोकविशेष-। c) वैपश् यद्। d) अ १०, ७५, ५। e) व्युः।

f) *स्त्वान्ते इति निशा? यनि. शोधः द. (तु. तैत्रा १०, ११, २; JC.)। g) तैत्राशा १०, ६७। h) तु.

सस्य. टि. युग्मद्- > *तप्-> ते। i) 'नयति' इति आन.। j) ✓वद्>वद् इति पा. यनि. शोधः द.।

k) तैत्रा १०, १, ३। l) अ १, १६४, ३९। m) मा ३१, १८। n) तैत्रा १०, १, ५; २, ६। o) तैत्रा १०, १, ६।

p) तैत्रा १०, १, ७। q) तैत्रा १०, ४६, १। r) उत्तरेण संघिर्णम्। s) अ १०, ८४, ५। t) वैतु. विद्यु. (IHC

१७, ८९) विष्य(<✓व्यप्) इति। u) 'स्थानम्' इति आन.। v) अ १, १०५, १। w) अ ४, २७, १। x) 'वेदम्'

इति आन.।

२,७; वृ १,४,१०; विद्याः शा
३४९; मु १,१,५२९; विद्याम्
क १,१,२०; गी १०,१७.
विदामः गोड १४४; कथु २,१.
विवेद छां ६,१३,१; वेदिव्यन्ते
छां १,९,३; वेदिव्यन्त छाग २४:
१७; वेदिव्यावः वृ ३, २,१३;
अभेदीत्व के २,५; अवेदिपुः छां
६, १,७; अविदम् छां ४, १,७;
८; वा १४; अवेदिपम् प्र ६,
१; अवेदिव्यन् छां ६, १,७;
अवेदिव्यम् छां ५, ३,५.
- अवेदि वृ ४,४,१४^१.
वेदयते प्र ४, १०; ११; वृ ३,
३,९; ए १३; इ १०: २०^१;
वेदयति मना २, ७९९^१; ऋ १;
वेदयन्ते प्र ५,७; मुं १,२,१०;
छां ८,७,३; वेदयसे वृ ४,२,४.
विदिविपन्ति वृ ४,४,२२; वि-
विदिपाणि छां १,११,१.
विष्वा छां १,४,३.
विद्- वित् क २, ३, १८.
*विदा-
- *विदां/कृ, विदांचकार के ४,
१-३; छां १,२,१३; वृ ५,१४,
८; सूता ३, ५; गा २६; विदां-
चक्रुः छां ६, ४, ५; ६^१; ७; छाग
२४: ५.
१विदान- -नःवा १; सिशि ३८०: ९.
विदित,ता- -तः गी १,२९; पाशु १,
२५; -तम् के २,१; वृ १,४,१६;
२,१,१४; ४,५; ४,५,६; ऋ २;
सुबा^१; नाप ३, १७; ७८; त्रिवि १,
२; ८, १४^१; पत्र ३, ३; पप ४ १७:
२; -ता छां ४, ९, ३; -त्वा के १,
३; पाशु २, १३; -ते गी ४, ८९.

विदित-व्यन्-कारण- -व्यन्
सांस् १, १५५.
विदिता(त-आ)व्यन्- -व्यन्ना
महा २, १६; -स्मनाम् गी ४, २६.
विदिता(त-आ)विदित- -त्वा
वृ २, १६; १९.
विदिष्वा क १, १, १७; १८; २, १,
२; वृ ३, ५, १; ८, १०; ४, ४, २२;
२३; खे १, ७; ३, ८९^१; ६, १५९^१;
गी २, ३६; के २, ४; हं ५; सुबा
१३; नाप ८, १८; त्रिवि २, १७.
विद्या^१ -द्या ई १०; ११; के २,
४; प्र १, १०; छां १, १, १०; वृ
१, ५, १६; मैत्रि ४, ४; ७, ९; रापू
४, ६३९^१; शां ३, १; १संन्या २,
९८; यो २, १६; सार २३२: ६;
भव ३, १९^१; ऋम् ४, १, १८; -द्या
क १, २, ४; ते १, ३, ३; ३, ६, १;
छां १, १, ९; १०; २, २, १, १; २२;
२; ४, ९, ३; ५, ३, ७; वृ ५, १४,
२; ६; ६, २, ८; खे ५, १; मैत्रि ६,
३२; ७, ९; मना २, १४९^१; ७९९^१;
वृजा १, १; ३, १; २; वृ ५, १५,
१०; ससा १, १; ६; ते २, ८; ६,
२०; ध्या ६४; नाप ३, २४; सी
३१, योचू ३४; अता १७; राज
४, २, १; महा ५, ११०; १संन्या
१, १; २, ८३; अक्ष ३; १आ ४;
पाशु १, २; ३; २, १, ८; ३२; त्रिता
१, ९; ६२; ६४; ६९; ७१; ७५;
२, १५; ३३; हे १; रह २८;
३०; यो २, ४; ३७; मवा ५;
गोड ५७; त्रि १६; शा ३३९^१;
व ६; सु १, १, १९^१; इ १३;
स्व ६०: ४; सार २८१: १७;
लि ३१०: ११; सि १, ३४; गा

४; २०; तारा ८३: २; अद्वैता
६; भव ५, १२; पितृ २, ८; कथु
१, १; ऋ ३, ३, ४७; -द्या: वृ २,
४, १०; ४, १, २; ५, ११; महा ६,
१६; गोपू २२^१; नापू ५, ३७;
३९; सार २४८: १३; -द्यानाम्
वृ २, ४, ११; ४, ५, १२; गी १०,
३२; -द्याम् ई ११; क २, ३, १८;
छां १, ४, ३; ४, १७, ३; वृ १, ५,
१६; मैत्रि ७, ९; वृजा ५, १६;
सुपू ३, ४; सुबा ७; नाप ३, ७२;
योशि १, २२; अव्य २; ६; ७^१;
अश १, ३; अध्या ७०; सू ३०;
त्रिता १, ५८; ६१; ७८; २, १५;
१८; १९; २२; २६; २८; ३०;
३२; ६९; ५, २१; रह ३६; यो
२, १; ३; २५; २६; २७; पं २६;
गह १; सार २३२: ६; १३; १४;
१६; हे १४; व ४३३: ७; ४६५:
१८; हंयो २०; कथु २, २; वपू २,
२; वज ३, ५३; भव ३, १९;
-द्याया: छां ४, १७, ८; अव्य ५;
त्रिता १, ६०; व ४३६: ३;
-द्यायाम् ई २; वृ ४, ४, १०^१;
अध्या १४; सार २३२: ८; -द्याये
गोड ६६; -द्यासु रा १, ४; -ये
मुं १, १, ४; मत्रि १७; रह २८;
अवि १७; भव ३, २.
विद्या-कर्मन्- -र्मणी वृ ४, २;
निरु २, ५; -र्मणे: ऋ ३, १, १७.
विद्या-कल्प-तर- -रवे त्रिवि ७,
४३.
विद्या(या-आख्या)व्य-
-व्यम् वृजा ४, १९.
विद्या-तपस- -योभ्याम् भव ३,
१८.

a) वाध २, ९। b) °म इति निना। c) °अविहम् इति निना। d) °दिः (प्र. निता. °दीः) इति पा.।
यनि. शोध. द. (वैतु. शं. प्रष्ट = अज्ञान- इति)। e) °यत् इति पा. इति यनि. शोध. द.। f) तैश्चा १०, ६३, १।
g) मा ३१, १८। h) = ज्ञान-, मन्त्र-, इकार-बीजाक्षर-, देवीविशेष-। i) = इकार-बीजाक्षर-। j) मा ४०, १४।
k) तैश्चा १०, १३, १। l) वाध २, ८। m) °वाम् इति निता.। n) मा ४०, १२।

विद्या-तपो-ध्यान-मैत्री-कला-
गुण-संयुक्त- -काः सार २८७:
२०.

विद्या-तस्(>) मांसू ५, १६.

विद्या(द्या-अ)तीत- -तः त्रिवि
१, १.

विद्या(द्या-आ)स्मन्- -स्मा रथा
३२.

विद्या-दान- -नम् सर ३, २; शि
१, ३५; -नेषु रार १, ४.

विद्या(द्या-आ)दि- -दीनाम्
त्रिवि १, १०.

विद्यादि-साकार-भेद- -दः
त्रिवि २, ९.

विद्या-धन-धान्य-यशस-क-
(र>)री- -रीम् व ४३३: १.

विद्या-धर^१- -रः नाद १३;
-राणाम् गु १५.

विद्या(द्या-अ)धिकारिन्- -रिणि
शु ३, ३.

विद्या-ध्वस्त-प्रपञ्चा(ध-अ)व-
गाहित-ज्ञाना(न-अ)वशिष्ट-
-ष्टम् नि ४३.

विद्या(द्या-आ)नन्द-

विद्यानन्द-मय- -ययोः
त्रिवि ६, २३.

विद्यानन्दमया(य-अ)-
मृत-द्विष्य-शरीर- -रम् त्रिवि
६, २१.

विद्या(द्या-आ)नन्द-सुरीय-
-याणाम् त्रिवि २, ९.

विद्यानन्दसुरीया(य-अ)श-
-शाः त्रिवि १, ९.

विद्यानन्दसुरीया(य-आ)-
रूप-पाद-त्रय- -यम् त्रिवि ४,
१०.

विद्या-निधि^१- -धये त्रिवि ७,
४३.

विद्या-न्याय-रूप- -पः पो १५.

विद्या-पाद्- -दः त्रिवि १, ९.

विद्या-प्रकाशित(>)ता- -तया
त्रिता १, ७१.

विद्या-प्रपद्य- -द्यः, -द्यस्य त्रिवि
३, २.

विद्या-प्रपूरित- -तः कालि
४०२: ३.

विद्या-प्राधान्य- -न्येन त्रिवि २,
१०.

विद्या-वाप्य-

विद्यावाप्य-स्व- -स्वे सांस्
५, १८.

विद्या-भक्त- -क्ताय कालि४०३:
१८.

विद्या(द्या-अ)भीप्सित- -तम्
मैत्रि ७, ९.

विद्या(द्या-अ)भीप्सिन्- -प्सि-
नम् क १, ३, ४^१.

विद्या(द्या-अ)भ्यास- -से १संन्या
२, ८४.

विद्या-मन्त्रै(त्र-ए)क-संश्रय-
-यः भ २, १३.

विद्या-मय- -यः भ २, १३;
गोड १४; -यान् त्रिवि ६, २०;
२१.

विद्या-युग-शोधन- -नम् तारा
८४: ९.

विद्या-राज- -जाय हं ३; त्रिवि
७, ४१.

विद्या-राज्ञी- -ज्ञीम् कामे ४;
१३; शुषो ४२१: ३.

विद्याराज्ञी-न्यास- -सम्
शुषो ४२०: १.

विद्याराज्य(ज्ञी-अ)धिका-
रिन्- -री कामे १३.

विद्या-रूप- -पः भ २, १३.

विद्या-लिङ्ग- -ङ्गम् लि ३१३: ३^१.
विद्या(द्या-आ)लोक-समायुक्त-
-कम् पं ६.

विद्या-यत्- -यताम् शु ६६;
-यन्तः भ २, २९; -यान् ग १८.

विद्या(द्या-अ)विद्या- -द्ययोः
त्रिवि ६, १९; -द्याभ्याम् गोड
१४; -द्ये श्रे ५, १^१; ते ५, १४;

मवा ३; गोड १४.

विद्याविद्या(द्या-आ)दि-
भेद- -देन १आ २.

विद्याविद्या(द्या-आ)दि-मेया-
(य-आ)स्मन्- -स्मा ते ४, ७१.

विद्याविद्या(द्या-आ)दि-
रूप- -पम् ते ५, ८२.

विद्याविद्या(द्या-आ)दि-
वर्जित- -तः ते ४, ७१.

विद्या-विनय-संपन्न- -न्ने गी५,
१८.

विद्या-विभूति- -तिम् त्रिवि ६,
२०.

विद्या-विषय- -यम् अन्न ४,
२७; क १०.

विद्या(द्या-आ)विर्भाव- -वः सार
२५०: ११.

विद्या-वृद्ध- -द्धाः मैत्रे २, २४.
विद्या-वेद्य- -द्यः त्रिवि १, १.

विद्या-शक्ति- -क्तिः वृजा ३, १.
विद्या(द्या-अ)ष्टक- -कम् त्रिता
२, ३४.

विद्या-सधर्मन्- -र्माणः सार
२५३: २१.

विद्या-साकार- -रः त्रिवि २, १०.
विद्या-सामर्थ्य- -र्थ्यात् प्रसू ४,
२, १७.

विद्या-सिद्धि- -द्धिः अत्रि १,
चा १४.

विद्या-स्वरूप- -पः त्रिवि १, १.
विद्यो(द्या-उल्का)>रूप-
-क्ताय त्रिवि ७, ४२^१.

विद्वस्- -द्वुपः ते २, ७, १; मना २,
८०^१; पदं १; वरा ३, २३^१;

इ ११:१७; योस् २,९^a; -दुपा
अध्या १; -दुपाम् छां ८, ६, ५;
-दुपे वृ ५, १२, १; -द्वन्निः मैत्रि
६, ९; राष्ट्र १, २; -द्वन्नि वि२७;
-द्वान्सः सुं १, २, ११; छां ५, १८,
१; ६, ४, ५; वृ ४, ४, २२; ६,
१, ८-१०; १२; १४; मैत्रि ७,
१०; मना २, ५९९^b; ७८१^c;
कौ २, ५; १३९^d; सुवा ८; शा
१८; -द्वान्सम् वृ ५, ५, १; कौ
२, १०^e; -द्वान् ई १८; क १,
१, १८; प्र ३, ११; ५, २; ७;
सुं १, २, १३; ३, १, ३, ४; २, ४;
८; तै २, ४, १; ६, ३; ९, १^f; ऐ
४, ६; छां १, १, ७; ८; ३, ७, ४,
५; ७, ७, ९; ९, २, ४; २, १, ४, २,
३; ३-७, २; ८, ३; १०, ६; २४, २;
३, १६, ७; १९, ४; ४, ५, ३^g;
६-८, ४^h; ११-१३, २ⁱ; ५, २४,
२; ३, ७, ५, २; वृ १, २, ३, ५, २;
३, ९, १९; ४, १, २-७; ४, १, ७, ५,
१५, १९^j; ६, ४, ३; ४^k; २४; श्वे
२, ८; ६, २१; गौ ४, ८६;
मै ५, १; मैत्रि ४, ४; ६, १; १८;
१९; मैत्रे २, ११; १९; प्रवि १६;
कै १, १; आह ३^l; ५^m; मना
१, ३९ⁿ; ११९^o; २, ७९९^p;
८०९^q; व २; ३, ६; कौ १,
४^r; २, ६; १४; ४, २०; वृजा ३,
८; १६; २९; सुपु १, १३; बाला
१७; नि १०; ४३; ४४; तै १,
५१; नाप ३, ११; ८०; ८३; ४,
३५; ५, २६; ९, १; शा १७९^s;
त्रिवि ४, ५९^m; मुद्र ४^t; शां १,

५; ७, ४७; पै ४, ११; योशि २,
४; ६, ५४; १संन्या १, १; २,
९०; पप ४१८: १; अव्य ४;
कुं २८; सावि १०; १आ ११;
पत्र ३, ७; १२; त्रिता ५, १६;
जाद ६, ८; ११; ७, ७; ११; १३;
मवा ९९^u; पं २३; या २, २२;
शा ३०; जावा २६; सी २,
१३; गोच ६७: ३; १२; १७;
नापु ४, १४; नाठ १, १; स
३७९: ४; २१; गु ३८; अह
२७९^v; वपु २, ५; भव १, २; ३,
२५; २६; कधु १, १; अवि १६;
गी ३, २५; २६.

वैदुष्य-व्यम् रार २, ८८^w.
विद्वत्-संन्यासिन्-सी नाप ४,
३८; ५, १.

विविदिपत्-पताम् गोपु ६.
विविदिष्या-

विविदिष्या-संन्यासिन्-सी
नाप ४, ३८; ५, १.

वेचु-त्ता श्वे ३, १९; कै २, २; तै
६, ८; नाप ९, १४; सिशि ३८१:
६; गु ५१; भव २, ४६; गी ११,
३८.

वेद्व-वदः व १.
वेदन-नाम् तै २, ३४; ६, ८; १आ
८; वरा ३, ५; -नात् जाद १, २५.

वेद्ववत्-यन्तः इ १२: ७.
वेद्विव्य-व्या-व्या: सुं ३, १, ९;
कौ ४, १८; -व्यम् वृ ५, १, १; श्वे
१, १२; मैत्रि ६, १०; नाप ६, १;
९, ११; १६; भव २, ५७; गी ११,
१८; -व्ये सुं १, १, ४; मैत्रि ६,

२२; त्रिवि १७; वै १; वृह २८;
भव ३, २; अवि १७.
वेद्वित्त्व-त्रिवि ३, १; पप ४१७: ३;
स्व ६२: ३; गी १८, १.

वेद्वित्-त्ता वृ ३, ९, १०-१७.
वेध-घा: के २, ३; आबो ८; गी १५,
१५; -घम् प्र ६, ६; श्वे ३, १९;
सुवा ५, मसा ५; तै २, ११; ६,
८; नाप ९, १४; अता १०^x; महा
२, १९; वरा ५, ५६; वटु ३१८:
९; गु ५१; भव २, ४६; गी ९,
१७; ११, ३८.

वेध-वेदक-क: मध ९: १८.
वेद्याद्यस्थिरमायाद्य-घा:
पी ४२२: १२.
वेद्या(द्य-अ)भाव-वान् महा
२, ६.

√विद्(लामे) > न्व्, विन्दते के २,
४^y; तै २, ७, १; छां ८, ३, २; ५,
१; २; वृ १, ४, ७; १७; ४, २, ४;
श्वे १, ९; ना३; मना २, ४१९^z; कौ
४, ११; न्या३; नाप ९, ८; त्रिता ४,
२४; कर् २६; मर १, ११; पित्र २, ७;
६, १४; १९; गी ५, ४; विन्दति
वृ १, ४, १६; गर्भ १^{aa}; ३-५;
ध्या ५०; नाप ३, २७; ५, २९;
गोच १४; पै ४, १८; सू ३२; वै
२०; ग १६; सि ६, २८०; ७,
१०३; व ४२२: १४; ४६२:
१७९^{ab}; वपु १, ४; वठ ६, ४८^c;
गी ४, ३८; ५, २१; १८, ४५; ४६;
विन्दते यो २, ५; सार २५४:
९; २९०: १४; विन्दन्ति छां
८, ३, २; तै १, ४^d; आर्व ७: १९;

a) व. गप. वृ३४१d। b) तैआआ १०, ५९। c) तैआ १०, ६२, १^e। d) ^eद्वान्सम् इति शांभा ४, ११।
e) वेवृ. Jc. तद्वि इति। प्रह्व इति मंत्रा १, ५, १०। f) अ १, १८९, १। g) तैआ १०, १, ३; मा ३२, ९। h) अ
३, ४७, २। i) तैआ १०, ६३, १। j) तैआ १०, ६४, १^f। k) व. सस्थ. वि. प्रह्वन्->छ। l) तैआ ८, ४, १।
m) 'त्रिविद्वत्' इति मा ३१, १८। n) तैआ ३, १२, ७। o) तैआ १, २७, ४। p) ^gदुव्यम् इति निमा. यनि. शोष:
द. (तु. अज्या.)। q) कर्त्तरि कृत्। r) उव. कर्त्तरि ष्वल् द.। s) वा.। t) तैआ १०, ३९, १। u) ^hते इति अज.,
अज्या.। v) अ ९, ६७, २१। w) पा. 'विन्दते' इति शोष: द. (व. अज्या. संटि.)।

शि १, ३; विन्दामि गौ ११, २४;
विन्द छां २, २४, ५, ९; विन्दत
छां २, २४, १४; अविन्दत् शौ ५, ३;
१०; अविन्दन् छां २४ : २०;
विन्देत महा ४, १५; विन्देत
वृ १, ४, १७; ६, ४, १३; जा ४;
पप ४१८ : १४; नाप ३, ७७; या १,
१; सिशि ३८० : ८; विन्देयुः छां ८,
३, २; विन्धात् त्रिता ५, २१७;
सिशि ३८२ : २४.
१० अविदाम अशि ३, ४; च
२१ : १९; वट्ट ३१५ : ४.

वित्त- -त्तम् क १, १, २४; २७; छां
५, ३, ६; वृ १, ४, १७^१; ५, १५^१;
२, ४, ५^१; ४, ५, ६^१; सु २, १, १; इ
१११ : ५; १४ : १७; शि ६, २४७;
२४८; २५१; २५४; -त्तस्य तौ
२, ८, १; छा ५, ३, ६; वृ २, ४, ५;
४, ५, ६; -त्तात् वृ १, ४, ८; -त्तेन
क १, १, २७; वृ १, ५, १५; २, ४,
२^१; ४, ५, ३^१; शि ६, १६६.

वित्त-आत्- -तरम् मैत्रे २, १२.
वित्त-म(व>)यी- -यीम् क १,
२, ३.

वित्त-मोह- -हेन क १, २, ६.

वित्त-स्त्री-पराहमुख- -लः पप
४१९ : ५.

वित्ता(त-अ)नुसार-
वित्तानुसार-तस(>) शि
६, १२१.

वित्तै(त-ई)वा^१- -वाः गौ १०, २३.

वित्तै(त-ए)पणा^१- -णा वृ ३,
५, १^१; ४, ४, २२^१; -णावाः वृ ३,
५, १; ४, ४, २२; वृ ६, ४; नाप
४, ३८^१.

वित्ति- -त्तये वृ ६, ४, २०.

विन्दमा(न>)ना- -नाम् पा ९, ७.
वेदस- -दः त्रिता १, ७९^१; व ४३० :
६९^१; ४६० : १६९^१; ४६१ : ६९^१;
-९^१दसाम् व ४४२ : ९; ४४७ :
१५; ४५२ : १; ४५५ : ७.

√विद्(सतायाम्), विद्यते छां ८, १, २;
शे ३, ८९^१; ६, ८; १५९^१; १७; गौ
१, १३; १८; २३; २५; २, २; ३,
१०; ३८; ४८; ४, २३^१; ३४; ५८;
७१; ७५; ९१; मैत्रि ४, १; मन्त्रि
१९; ते १, २, ३; २, ३२; ४१; ४,
४२; ५, १४; ७५; ६, १९; नाद
२२; ऋषि ११; ऋषि २४; १यौत
५१; ९१; १०३; नाप ४, २३;
३१; ९, १; योचू ११; ११३; मं
१, ३, ४; त्रिवि २, १२; ४, ३;
५९^१; १४; ५, ४^१; ७^१; ६, २५; ८,
२; १५; राज ५, २७; महा २,
१९; ३, ३७; ४, ४९; ५, १; ५२;
११९-१२१; ५, ३५; ९, १; योशि
१, ३७; १४९; ४, ३; ५, ५६; ५८;
६०; ६, ३१; १संन्या २, ६३;
अव्य ३; अल २, ३४; ४, ७;
१८; १९; २१; ५८, ६८; ७०^१;
१आ ३; पाशु २, २७; या २,
२४; वरा २, ३८; ६०; ६१;
४, २३; श्वा २८; १अव २९;
त्रिता १, २८; ४७; ५, ११; दे
१७; मवा ९९^१; सु २, २, ३३;
३५; २प्र ३५ : १७९^१; लि ३१० :
२२; शि १, ३४; ५, ८; ६, ११०^१;
कामे ११; कालि ४०२ : १६; गु
६७, मव १, ६; १३; २, ४, ५; ३,
११; पित्र २, ३; ४, २; ६, ५^१;
१०; अवि ११; गौ २, १६^१; ३१;
४०; ३, १७, ४, ३८; ६, ४०; ८,

१६; १६, ७; विद्यते त्रियार, २१;
विद्यन्ते छां १, १०, २; गौ ४,
६४; ६६; पाशु २, २२; १कौल
४; १; विद्यते गौ १, १७.

विद्यमा(न>)ना- -ना महा ४,
११२.

विद्यमान-स्व- -स्वम् वरा ३, १;
-स्वात् सांस् ५, १०३.

√विद्(बधा.)

विद्^१-

विद्-भृत्^१-

वैदभृत्य-

वैदभृती-

वैदभृती-पुत्र- -त्रः,

-त्रात् वृ ६, ५, २.

रवेद^१- -दः छां ७, १, ४; वृ १, ४,
१५; ५, १, १; ६, ४, २६; ते ४,
१५; दे१; रुह २१; वरा ४, ३२;
इ १३ : २१; १६ : १४; पा ५,
७; -दम् तै १, ११, १; छां ७, १,
२; २, १; ७, १; ८, १५, १; वृ ६,
४, १४; ते ३, ५०; ६, ४; कठ १;
इ १० : ८; १९ : २०; पित्र ३,
४; कथु २, ३; -दस्य ऐ कौ नाद
आयो निर्वा मुद्र अक्ष सौ सर व
दा^१ १०^१; आश्र १; सांस् ५, ४१;
-दाः के ४, ८; क १, २, १५; सुं
२, १, ४; तै १, ५, ३; छां ३, ५,
४^१; वृ १, ५, ५; ४, ३, २२; ५, ६^१;
७^१; ६, १, ४; शे ४, ९; गौ २,
२२; मैत्रि ६, ३२; अ१; ऋ२; वृ
१, ४; ६; ४, १५, १३; ५, ७, ते
५, ३६; ऋषि ३; १यौत १३४;
२यौत १, ६; योचू ७४; राज ४,
६; शां ३, १; योशि ६, ११; ५७;
सू १४; त्रिता १, ११; म २, २६;

a) °देते इति श्रव्या । b) 'विधात्' इति श्रव्या । c) ऋ ८, ४८, ३ [तु. PIV. प्र. ५; वैतु. वै. सा. <√विद्(लामे) इति] । d) वित्ते° इति निता. यनि. शोधः द. (तु. श्रव्या. धनैप° इति) । e) ऋ १, ९९, १ । f) ऋ १०, ८४, २ । g) ऋ १, ८९, ५ । h) मा ३१, १८ । i) तैमा ३, १, २, ७ । j) 'विद्युतः' इति पा. १ यनि. शोधः द. (तु. गोत्रा १, १, २७) । k) धा. अर्थः । l) =गोत्रप्रवर्तक-ऋषिविशेष- । m) ऐश्व २, ७, १ ।

आ ४, १; सु १, १, ९-११;
 १प्र ३१: ३; २प्र ३७: ३; औ
 ५२: १; स्व ६०: ४; गीच ६६:
 १५; ६९: १२; नाप ५, ३६;
 सार २२४: १६; २८५: १४;
 सि २, ६; सिशि ३८२: ७; गार
 ४०५: ९; गु २०; ३९; ५४;
 अद्वैमा ७; वपू १, ७; २-३, १;
 भव १, ३५; २, ५०; विम ६,
 १२; गी २, ४५; १७, २३; दाव
 जाद १, १८; दाव छां ६, १, २;
 ७, ३; ६; ४, ५, ७; ६, ४, १६;
 १८; खे ६, १८; अशि १, १०;
 काला १९; नाप ४, १; स २;
 अव्य ७; कुं १; १अव १३; कव
 २; सु २, २, ६५; २प्र ३२: ३;
 ७; गीच ६९: १४; २शिसं २७;
 गार ४०८: १७; कधु २, ३; ३,
 २; दानाम् छां ७, १, २; ४; ३,
 १; ७, १; ४ २, ४, ११; ४, ५, ६;
 १२; वपू ४, १३; शु १, १५; २प्र
 ३५: ५; ३६: ४; वा १४; वा ५,
 ७; सं २२; पारा १; सां ५, ४५;
 गी १०, २२; दे जाद २, १२; सु
 १, १, ९; सार २२०: १६; २२१:
 ११; २२७: ४; गी १५, १८;
 अेय्य: गार ४०५: ९; गु ७७;
 वपू १, ३; देपु मै ४, ३; मैत्रि ४,
 ३; ७, १०; आरु २; ते ५, ८८;
 शां २, १; वै ४, २३; जापा १८८;
 वप ८५: १५; २शिसं २२; स
 ३७७: ७; गी २, ४६; ८, २८;
 अै: कै २, ३; अशि ७, ४; सुपा
 ९; ते ३, १८; वै ४, ९; अव्य २;
 कृ ६; मृता १, १५; सार २३१:
 ११; पद ३१८: ६; हे १४; गी
 ११, ५३; १५, १५; दी वृ ६,
 ४, १५; वपू २, १.

वेदिक-कः सु २९५: ४;
 -कम् अवि ६१?; भव ५, ६; १६;
 -का: स्व ६१: १५; -कान् भव
 ५, १४; -कानाम् वा ३४; -के प्र
 ३, ४; नाप ३, ८४; जाद २, ७;
 पत्र ३, ८; -केन भव १, ५७; -केपु
 मैत्रि ७, ८; जाद २, १०; -कै:
 जाद १, १८.
 वेद-अच् -अच: सार २३९:
 १९; २४०: २१.
 वेद-कल्प-तल् -रवे त्रिवि ७,
 ४३.
 वेदकल्पतरु-वन- -भम् सि
 १, १३.
 वेद-क्रिया- -या अद्वैमा ७.
 वेद-गर्भित- -तम् शु १, १२.
 वेद-गुह्यो(वि-उ)पनिपद्-
 -पल्लु वे ५, १.
 वेद-तत्त्वज्ञ- -ज्ञ: जाद ६, २८.
 वेद-तत्त्वा(स्व-अ)र्थ-विहित-
 -तम् लु २.
 वेद-वच- -वचम् पारा १.
 वेद-द्वितीयक- -कम् पं ३.
 वेद-निन्दक- -क: इ १७: ९.
 वेद-पारता- -या: प्र २; नाप
 ३, ७८; -गी: गी २, ३५; ते ५,
 ८७.
 वेद-पुरुष- -प: पहं १; तुम ४;
 पप ४२०: १०; सि ३११: ५;
 -या: सार २३९: १९.
 वेद-प्रज्ञाचर्य- -चर्यम् आप्र १.
 वेद-म(य)पी- -पी विप्र २, ८.
 वेद-मयांदा(दा-अ)तिरि(क)-
 क्ता- -क्ता: सार २४१: ११.
 वेद-मातृ- -तम् पप ४१८:
 २१; -ता ममा २, ३६?; -मु:
 पारा १.
 वेदमातृ-व- -वचम् पारा २.

वेद-मार्ग- -गी: भव २, ६१.
 वेदमार्गो(र्षे-अ)दि-
 -दिभि: सार २३१: १८.
 वेदमार्ग-कर्मा(र्षे-अ)ति-
 रिक्त- -क्ता: सार २३४: २१.
 वेद-यज्ञा(ज्ञ-अ)ध्ययन- -जै: गी
 ११, ४८.
 वेद-रह(नक)सिकी- -की
 २प्र ३६: २.
 वेद-रूप- -पम् वि १४.
 वेदरूपि(न)गी- -ग्य:
 सार २४१: ५.
 वेद-लौकिक-मार्ग- -गोपु जाद
 २, १०.
 वेदलौकिकमार्ग-कुसित-
 कर्मन्- -मैगि शां १, २.
 वेद-वचन- -नम् राधा १,
 २७; ३, १९; ४, २६; १७;
 सिशि ३८३: १४; १५.
 वेदवचना(न-अ)नुरूप-
 -पम् वपू ३.
 वेद-वर्जित- -तम् इ १७: १६.
 वेद-वाच्य- -वच्यम् अद्वै २१:
 -क्यै: ते ५, ९.
 वेद-वाद-रत- -ता: गी २, ४२.
 वेद-वादिन्- -दिभि: काला
 १०; जापा १८.
 वेद-विद्- -विद् वृ ३, ७, १;
 मैगि ६, १५; कै २, ३; लु १७:
 पया १८; ३६; ३७; योचु ३५;
 ७९; ८१; वीशि ६, ६; पम ३,
 २; वरा ५, ७०; इ १४: ३; गी
 १५, १५; -विद्: गी २, २२;
 नाप ९, ६; सार २२१: १४;
 गी ८, ११; -विदम् ए १०;
 जाद ४, ४०.
 वेदविन्-तम- -मे: भव १,
 ५१.

a) पा० इति निता. बनि. लोच: इ. (गु. अभा.) । b) अ इति अभा. । c) मैकासा १०, १६ ।
 d) पम. । उप. रहस्-+उ>इकः प्र. इति इत्वा श्री. वीप् इमे. (पा ४, १, १५) ।

वेद-विद्या(या-अ)धिगम-
-माः मै ४, ३१^३; मैत्रि ४, ३.
वेद-विद्या(या-अ)न्तर- -रम्
मैत्रि ७, ८.
वेद-विद्या-मत-घात-दैनिक-
-कस्य सु १, १, ४१.
वेद-विहित-कर्म-मार्ग- -मौपु
शां १, २.
वेद-वेद- -दः सी २८.
वेद-वेदान्त- -न्तयोः शु ७५.
वेद-व्यास^{१०}- -सः तुल ७१ :
२२; -सम् गार ४०७ : १२;
-साय तुल ७१ : २२.
वेद-शास्त्रा-
वेदशास्त्रिन्- -खिनः अद्वैभा
७^१.
वेद-शास्त्र- -स्त्रम्^१ ते ५, ४३^३;
-स्त्राणि सुबा ५; अवि ३०; योशि
३, ७; तुल ७१ : ५; -स्त्रैः सुबा ५.
वेदशास्त्र-प्रतिभासित-
-तम् अद्वै २१.
वेदशास्त्रा(त्र-आ)दि- -दि
ते ४, ४६^१; -दिभिः सी ३७.
वेद-शास्त्र-पुराण- -णानाम्
योशि ३, ११; -णानि १आ ९.
वेद-शिरः-प्रविष्ट- -ष्टाः शा
११.
वेद-संस्कार-कर्मन्- -र्मणि शु
१, २.
वेद-सम- -मः वट ५, २१.
वेद-संपन्न- -न्नः अता १४;
द्र ४.
वेद-संमित- -तः इ ११ : ९.
वेद-भार- -रम् भ १, १; -रे
सावि १०.
वेद-स्त्री- -स्त्रीणाम् सार

२४१ : १.
वेद-स्वरूप- -रूपम् लि ३१० :
२१.
वेद-हीन- -नः इ १३ : २१.
वेदा(द-अ)क्षर- -राणि नाउ ३,
१७.
वेदा(द-अ)ङ्ग- -ङ्गानि नाप ३,
३२.
वेदा(द-आ)रमक- -रम् रुक
१३.
वेदा(द-आ)रमन- -रु^१नाय मना
१, ६; व ४६३ : ३.
वेदा(द-आ)दि^{११}- -दिम् द ४.
वेदादि-रूप- -पाय राउ ४,
१३.
वेदा(द-आ)दि^१- -दिपु
२शिम १९; -रु^१दौ मना २,
१२, ३; शु ३, १८; नाउ १, ५.
वेदादि-शास्त्र-हिंसक-
धर्मा(र्म-अ)भिष्याल- -नम्
मैत्रि ७, ९^६.
वेदा(द-आ)द्य^{१२}- -द्यम् षो
४२२ : २.
वेदा(द-आ)द्य^१- -द्याः सर
२, ८^१.
वेदा(द-अ)ध्यायिन्- -यी इ
१५ : ११.
वेदा(द-अ)नुवचन- -नम् तै १,
१०, १; हं २१^{१०}; -नेन वृ ४, ४,
२२.
वेदा(द-अ)नुदासन- -नम् आह
५^१; सुबा २^३; ५^१-७^१; १०^१;
११^१; १३^१-१६^१; रुक १५^१;
अध्या ७०^१; शा १०; १७; २९;
३२; ३७; वि २७.
वेदा(द-अ)न्त^{१३}- -न्तः मु १, १,

१; -न्तम् मु १, १, ७; -न्ताः ते
२, ४०; मु १, १, ८; -न्तान् नाप
३, २३; -न्ते धे ६, २२; मना २,
१२, ३५^१; शु ३, १८५^१; अष
५, १११; मु १, १, ७; नाउ १,
५५^१; -न्तेषु षी २, ३१; ह्यु १०;
-न्तैः नाद २६; नाप ६, ११.
वेदान्त-कृत्- -कृत् कै २, ३;
गी १५, १५.
वेदान्त-ज्ञ- -ज्ञः या ३०.
वेदान्त-ज्ञान-पारग- -गीः
जाद १, १०.
वेदान्त-ज्ञान-लिप्ता-
-प्तया नाप ६, १७.
वेदान्त-निश्चय- -यः गी २,
१२.
वेदान्त-मान- -नेन वरा २,
१४.
वेदान्त-वर्मन्- -र्मना पाशु
२, ३२.
वेदान्त-वाक्य- -व्यानाम्
महा २, ११.
वेदान्तवाक्य-ज्ञ- -ज्ञात्
कर ३६.
वेदान्तवाक्या(क्य-अ)-
र्थ- -र्थम् नाप ६, १८.
वेदान्तवाक्यार्थ-
विचार- -नात् मु १, १; १७.
वेदान्त-विज्ञान- -नम् जाद
९, ६.
वेदान्तविज्ञान-सुनि-
श्चिता(त-अ)र्थ- -र्थाः सुं ३, २,
६; कै १, ४; मना २, १३, ३;
भव ३, ३३.
वेदान्त-विद्- -विद् नाप
६, २४.

a) एववि^१ इति निसा. यनि. शोधः द्र. (तु. नाउ.) । b) =अपि विशेषेण । c) °दसाक्षिणः इति कोष्ट-
गतः पा. । d) समाहारे द्रस. । e) °दं वा^१ इति अच्चा. । f) °स्त्राः क इति अच्चा. । g) तैश्चा १०, १, ६ । h) तस.
=ओम्- । i) वस. । j) तैश्चा १०, १०, ३ । k) °खं हिंसक^१ इति सात. । l) वेवा^१ इति निसा. संदि. । m) °दप्रव^१
इति निसा., श्रान. ।

वेदान्त-वेदिन्- -दिभिः
जाद १, ८; १५; ४, ९; २२; ३२;
४१; ७, १४.
वेदान्त-वेद्य- -द्याय गोपू १.
वेदान्त-श्रवण- -णम् त्रिवा
२, ३४; शां १, ५; जाद २, ९.
वेदान्तश्रवण-पूर्वक-
-कम्* पप ४१९: २.
वेदान्तश्रवणा(सु-आ)-
दि- -दि सु १, २, ७; -दिना
नाप ६, २१; वरा २, ५.
वेदान्त-सारभूत-सिद्धा-
न्ता(न्त-अ)नन्त-स्कन्ध-
-धैः सि ६, १७.
वेदान्त-स्थिति- -तिम् सु
१, १, ८.
वेदान्ता(न्त-अ)भ्यास-
निरत- -तः नाप ६, २३.
वेदान्ता(त-अ)र्थ-तरवै-
(स्व-ए)क-स्वरू(प>)पा-
-पा सर २, १.
वेदान्ता(न्त-अ)र्थ-विचार-
-रः शां १, २.
वेदान्तो(न्त-उ)पगत- -तम्
नाप ३, ३९.
वेदा(द-अ)न्तर-आत्मन्- -रमा
पा ५, ७.
वेदा(द-अ)भ्यास- -सः मव ५,
८; -तेन ह १५: ३.
वेदा(द-अ)र्थ- -र्थः क ६; -धम्
सू ३२; गोच ६९: १२; १३.
वेदार्थ-प्रतीति- -ते: सांस्
५, ४०.
वेदा(द-अ)वसंस- -सम् भ २,
२८०.

वेदा(द-अ)हरण-कर्मन्- -मणे
त्रिवि ७, ४०; ह ४.
वेदिन्^१द- -दिनम् पित्र १, ४;
-दी पित्र १, २.
वेदो(द-उ)क- -केन जाद १,
७; २, ३; ११.
वेदोक्त-कर्म-मार्ग- -रत-
-ता: सार २४२: १२.
वेदोक्त-धर्मा(र्म-अ)धर्म-
-मेषु शां १, २.
वेदोक्त-विधि- -धिना लि
३१०: १८.
वेदोक्त-विधि-निषेधा-
(ध-अ)नुष्ठान-नैयत्य- -स्यम्
शां १, २.
वेदोक्ता(क्त-आ)चरित-ग्रह-
चर्य- -र्यः क १.
वेदो(द-उ)दित^०- -तम् भव १,
३४; ३७; -तेन सार २८२:
२२.
वेदो(द-उ)पनिषद्- -पत्तै १,
११, ४.
३वेद^१न्- -दः मना २, ८०: ९.
विद्- √विद् (ज्ञाने) द.
विद्- √विद् (*बधा.) द.
विद्य^२- -ये मना २, ४१९; -ऽधेषु
१शिसं २; २शिसं ३९.
९विद्य^३- -ध्यम् व ४४१: २०;
४४७: ४; ४५१: १७; ४५४:
२३.
वि-धत्- वि/या द.
विद्-मृत्- √विद् (*बधा.) द.
विदर्भ-
वेदभि^४न्- -भिः प्र १-२, १.
विदर्भो(कौण्डिन्य^५)- -ज्यः, -ज्यात्

वृ २, ६, ३; ४, ६, ३.
विद्व^६०-
वेदल- -लम् कुं १३.
वि/द्व^७
१वि-दग्ध-
२विदग्ध^{१०}- -ग्वः वृ ३, ९, १;
४, १, ७.
विदग्धो(ध-उ)दर-पूरण-
-णाय मैत्रे २, २५.
*विदा- १विदान- √विद्(ज्ञाने) द.
२विदान- वि/दो द.
चिदित- ,चिदित्वा √विद्(ज्ञाने) द.
चि-दिश- -दिशु रार ३, १; रापू ४,
५४; -दिशः ना २; त्रिवि २,
१६; पा ७, ६.
चि-दुष्ट- -तः कौ १, ४.
वि/दु. > दारि, विददार श ६.
विदारय-विदारय त्रिवा ३, ३३;
व्यदारयत् गी १, ९.
वि-दार्थे ऐ ३, १२; वै १, २९.
चि-दति^{११}- -ति: ऐ ३, १२.
चि-देश- -शम् सि ६, २१५.
१चि-देह- -हः मव ५, १८; अग्या १६.
१वेदेह-
वेदेही^{१२}- -ही ह ९;
-हीम् सु १, १, ४३.
वेदेही-मुक्ति- -कः
ते ४, ८१.
वेदेही-मुक्ति-ग-
-गः सु २, २, ३५.
वेदेहिन्- -ही ते ४, ३३;
३७; ३८; ४७; ४८; ५३; ५४;
६३; ६८; ७९.
२चिदेह^{१३}- -हा: वृ ४, २, ४; -हान्
वृ ४, ४, २३.

a) या. क्वि. द. । b) गृ. (५६२) सत्य. 'भन्तरात्मन्-> -रमा' इत्यत्र यनि. लोपः कर्त्तव्यः ।
c) *दादय् इति निमा. संटि. । d) =श्री नानन्देय- । e) उप. =२२दित- । f) =दशैमुष्टि- । गैर १ यद. । g) लैमा
१०, ६५, १ । h) गैर १ यद. । i) लैमा १०, १९, १ । j) मा ३४, २ । k) श्र १, ९१, २० । l) स्यु. १ =श्रयिबिरोप- ।।
m) शं. विदर्भ- (नगरविरोप-) >, गोपा. Piv. च विदर्भि-> यनि. इति । n) स्यु. १ =श्रयिबिरोप- । o) स्यु. १ ।
p) =श्रयिबिरोप- । q) द. गृ. ५२३६h ।

रविदेह- -हः वृ३, १, १, ८,
 २; ४, १, १-७, २, १, ४; ३, १, ४,
 ७; ५, १४, ८; जा ४; वृजा ७,
 १-५; या १, १; गा २५; -हम्
 वृ ४, ३, १; -हस्य वृ ३, १, १; २.
 विदेह-नगरी- -रीम् महा२, २०.
 विदेह-कैवल्य- -ल्यम् १आ २४.
 विदेह-प्रकृति-लय- -यानाम् योस्
 १, १९.
 विदेह-मुक्त- -क्तः महा २, ६४;
 अज ४, १९.
 विदेहमुक्त-ता- -ता अक्षि ४०.
 विदेह-मुक्ति- -क्तिः पप ४२०:४;
 सु १, २, ६; २, १, १; -क्तैः अज
 ३, १; -क्तौ अज ४, २०; सु १,
 १, २९.
 विदेहमुक्ति-विषय- -यम् महा
 ५, ३५; -ये अज ४, २०.
 वि/दो, > दा, विद्यति वृ ५, ७, १.
 रवि-दान- -नात् वृ ५, ७, १.
 विद्यमान- /विद्(सत्ताशाम्) द्र.
 विद्या- /विद्(ज्ञाने) द्र.
 वि/द्युत्, > घोति, विद्योतते छां २,
 ३, १; १५, १; ७, ११, १; वृ १, १,
 १; कौ २, १२.
 विद्युते शौ ५२:३; व्यद्युत्
 के ४, ४.
 विद्योतयति मैत्रि ७, ११.
 वि-द्युत्- -द्युत् छां ४, ७, ३; १३, १;
 ५, ५, १; २२, २; ७, १२, १; ८,
 १, ३; १२, २; वृ २, ५, ८; ५, ७,
 १; ६, २, १०; मैत्रि ६, ३५; कौ
 २, १२; सति ५; गु १८; -द्युतः
 के ४, ४; क २, २, १५; मुं २,
 २, १०; छां ६, ४, ४; वृ २, ५,
 ८; श्वे ६, १४; मना १, २४;

कौ ४, १७; गु ४५; १^०व ४३८:
 १९; ४३२: ६; १६; ४४०: ३;
 १३; ४४१: १; ११; २२; ४४२:
 १०; २०; ४४३: ७; १७; ४४४:
 १०; २०; ४४५: ८; १८; ४४६:
 ७; १७; ४४७: ५; १६; ४४८:
 ४; १५; ४४९: ३; १३; २०;
 ४५०: ४; ११; १८; ४५१: ४;
 ११; १८; ४५२: ३; ११; १८;
 ४५३: २; ८; १४; २०; ४५४: ३;
 ११; १७; ४५५: १; ८; -द्युतम्
 छां ४, १५, ५; ५, १०, २; कौ २,
 १२; -द्युता सूता३, १०१^०; -द्युति
 तै ३, १०, २; छां ४, १३, १;
 ५, २२, २; वृ २, १, ४; ५, ८; मैत्रि
 ६, २४; कौ ४, ४; -द्युतिः छां
 ७, ११, १.
 वैद्युत्- -त् तै १, २, २; मैत्रि
 ७, ११; योशि ५, ३२; -त्म् वृ
 ६, २, १५^०; अशि ३, १२^३; ४,
 १२; १३१^१; २२ ३३: ७; वृ
 ३१५: १२^३; ३१६: ५; ६१^१;
 -त्तान् वृ ६, २, १५^०; -त्तेन व्रम्
 ४, ३, ६.
 वैद्युता(त-आ)दि-
 वैद्युतादि-मय- -यन्
 वृजा २, ३^{१०}.
 वैद्युता(त-अ)म्बर- -रम्
 गोपू ८.
 विद्युञ्ज्वाला-निह्वा- -० ह्ये
 व ४६४: २२.
 विद्युत्-रव- -रव्यम् छां ६, ४, ४.
 विद्युत्-पुञ्ज-सम-प्र(भ>)-
 भा- -भा योशि ६, २६.
 विद्युद्-आकृति- -क्ति(शित्म्)
 योरा २.

विद्युद्-आभास-नालक- -कम्
 शिवा २, ६९.
 विद्युद्-उ(ल्का)>ल्क- -ल्काय
 नाप् ४, १९^{१६}.
 विद्युद्-वत् अ २^१.
 विद्युन्-नि(भ>)भा- -भाम्
 रार २, २४.
 विद्युन्-म(त्>)ती- -ती अ
 १^{१७}.
 विद्युन्-माला-
 विद्युन्मालिन्- -ली नाद९^१.
 विद्युन्मालिनी- -नी सी
 १८.
 विद्युल्-लेखा- -खा मना २,
 १३, २४^१; वा २२१^३; २३१^६; यो
 १, ६७; कालि ४०३: ४१^१.
 विद्युलेखा-वत् मं २, १, ५.
 वि-द्यु(त्>)वा^{१०}-
 विद्युतो(त-उ)प(मा>)म- -मः
 व्रवि ८; १२ ३१: १३.
 वि-द्योतमान- -नम् रार २, ३७;
 -सा: आपं ७: ३.
 वि-द्योतयितव्य- -व्यम् प्र ४, ८.
 वि/दु>द्रावि, विद्रावय-विद्रावय
 दत्ता २.
 विदुम^१-
 विदुम-कान्ति- -न्ति: सार २४४:
 १८.
 विदुम-कृ(त्>)वा- -ता: सार
 २८१: २२.
 विदुम-दोला- -ला सार २७१: ११.
 विदुम-दुम-संकाश- -शाम् प्या ८७.
 विदुम-रत्न-रक्षित- -तौ सार
 २६५: ७.
 विदुम-लता- -ता सार २८३:
 १५१^{१०}; -ताभि: सार २३३: ९.

a) मा ३२, २। b) खि ५, ८४, १। c) तैमा ३, ७, ६, २१। d) =लोक्विशेष-। e) वैद्युदा^१ इति निसा. अश्या. यनि. शोधः द्र.। f) पा१^१ यनि. शोधः द्र.। g) 'द्युक्ता' इति पा१^१ यनि. शोधः द्र.। h) 'द्युम' इति निसा. यनि. शोधः द्र. (द्र. आन.)। i) 'विद्या मात्रा' इति निसा. 'द्युन्मात्रा इति अश्या. च यनि. शोधः द्र. (द्र. आन.)। j) तैमा १०, ११, २। k) 'पीता' इति तैमा १०, ११, २। l) तैमा १०, ११, २। सङ्क्षेपे इति तान्त्रि.। m) =विद्युत्-।

विद्भुमलता-लवङ्गलता-प्रथि-
(त>)जा-ताः सार २६५ : २१.
विद्भुम-श्रेणि-
विद्भुमश्रेणीय- -याः सार २६३ : १३.
विद्भुम्-√विद्(ङने) द.
वि/द्भिषु->द्भेयि, विद्भेष्टि इ १६:८;
१°विद्भिषावहै कशां; तै सां; धे
कै गर्भे ना मना ब्र त्रिभि अना काला
क्षु ससा शु ते ध्या त्रिभि १योत द
रुक शारी योष्टि ए अक्षि १अव
कह रुह यो पं मर परा कलि सां;
हे सां; १प्र ३०:२; व४६६:१८.
विद्भिषय-विद्भिषय दत्ता २; व
४५६: ११.
वि-द्भेष- -यः सार २३५: १८.
३वि-द्भेषण^० - -भार्य व ४५६: १०.
२वि-द्भेषण^० -
विद्भेषण-कर- -०र अक्ष ५.
वि-द्भेषित्- -पिणम् मिता ३, ५.
विद्भेषि-सोहन-कर- -०र
अक्ष ५.
√वि(, <व्य)ष्ट् (*वधा.)> विष्पत्स,
विष्पति मि १३^०; विष्पन्ति
आपै ७:६; विष्प्यामि व ४६४:
१५१^०; अविष्पन् वृ १,२,२-६;
विष्प्यात् शि ७,५४.
अविष्पत् व ४५९ : २११^०;
विष्पेम् ई १८१^०; वृ ५, १५, ११६^०;
धे क्ष, १२१^०; मना १, ८१^०; २,
५११^०; ५२१^०; वृ २, १६१^०;
२शितं २९१^०; ३३१^०; ३४१^०; व
४६४ : ८१^०.
विष्पितुः छां १, २, २-६.

अविष्पत्सन् वृ १, २, ७^०.
विद्भु, छां- -द्भः छां १, २, २:८, ४,
२; -द्भम् छां १, २, ४-६; -द्भस्य
मैत्रि ६, २८; -द्भा छां १, २, २^०.
वेद्भुव^० - -भ्यम् सुं २, २, २; ४; ध्या
१५; रुह ३८.
वेद्भु^० - -द्वा रुह ३९.
वेध^० - -घः वरा ५, ६४; ६७; -धम्
वरा ५, ७३.
वेधा(ध-श्रा)ष्ट(दि-श्र)थं-
भेद- -दात् मत् ३, २, २५.
वेधक-
वेधक-कम-योग- -नेन वरा ५,
६२^०.
वि-धरण- वि/धृ द.
वि-धर्म-
वेधर्म्यं- -भ्यम् सांस् १, १२७;
१२८; -भ्यात् मत् २, २, २१;
-भ्यं गो ४, १७.
१वि-धर्मन्- -मांणः सार २८२ : २.
२वि-धर्मन्- वि/धृ द.
वि-घ(व>)घा^०-
विघवा(वा-श्र)नाथ-वृद्ध- -दानाम्
वि ६, २२७.
वि/घा, विघत्ते वृजा ६, ५; पा १, ७;
स ३७९ : १९; गु ७७; वि-
दघात्ति क २, २, १३; धे ६, १३;
१८; वा २; गोन् २०; २२; गोत्
१५; गु ७१; भव २, ४१; वि-
दघामि गो७, २१; विघेष्टि प्र २,
१३; न्यदघात् ई८; साट २५२;
२२; विदघ्यात् वृजा ४, १७.
विदघे पा १, ७; वि-...दघे धे
२, ४१^०; वघात् अय्य ६.
विघीयते छां ६, ५, १; ३; मैत्रे

२, ४-७; १०; ध्या ७६; नाप ३,
२८; योच् ४६^०; ४९; ९३; वा
३५; १संन्या २, ११; १७; आद
१, २१; सु २, २, ६७; सि ६,
४४; २५७; २५९; २७४; गो २,
४४; विघीयन्ते छां ६, ५, २.
वि-दघत्- -घत् छां ८, १५, १; मना
१, १४१^०; पा ६, ५; ८, ५.
वि-घा- -घवा तै ३, १०, १; सार
२३३ : ४.
वि-घात्- -ता मैत्रि ६, ८; मना १,
४१^०; सुभा ६; ए ६; मि १५;
क ११^०; कथु २, २^०; -आ मित्रि
३२^०.
विघात्री^० - -श्री सौ १, ३.
वि-घान- -नम् वा ७, ३; गु ७९;
भव १, ११; -नात् मत् ३, ४, ६;
-नेन गो व ६८: १४; वि ९;
अद्वैमा १९.
विघान-तस्य(>) वि २; ३२;
गु ८२; अद्वैमा १९.
विघानो(न-उत्त)>का- -पता
गौ १७, २४.
वि-घाय मित्रि ५, १२-१४; ६, २०;
२१; २३; २५^०; ७, १५; ८, ५;
१२; १७; वै १, १९; गोत् ५; पा
१, ९; सार २२१^०; २२२^०; २२३^०;
२२४^०; १-२; ५; १७; २२८:
२९; २३; २२९; १७; २३२:
२०; २३३: १; २३६: १२;
२५६: २; २५७: ८; २६०:
१४; २६२: ५; २६९: १५;
२७२: १; १०; १२^०; १६; २८०:
१८^०; २८६: ८; १८; गु ३२;
गो ४.

a) तेषा ८, १, १। b) बर्तारि कृत्। c) भावे कृत्। d) 'विदति' इति घञ्। e) तेषा ४, ३८, १।
f) श्र १०, ८३, १। g) श्र १, १८९, १। h) श्र १०, १२१, ३। i) तेषा १०, १, ८। j) तेषा ३, १५, १।
k) 'हवामहे' इति श्र १, ११४, ८। l) श्र १०, १२१, २। m) मा १३, २१। n) 'अविष्पत्' इति निगा.।
o) °दः इति निगा.। p) घा. भेदने कृतिः। q) °कप्रययो' इति घञ्, वेदकर्म' इति घञ्, मंति.। r) ये २१ वर.।
s) मा ११, ४। t) 'अयम्, उच्यते' इति घञ्। u) श्र १०, १९०, २। v) मा ३२, १०। w) =परिनिवेश-।

वि-धि^१- -धिः सु २, १, ७; मैत्रिष्ठ,
१; जा ५; बृजा ७, ७; ते ४, १५;
नाप ५, १; ६, १५; ३४; ७; महा
४, ७६; योशि १, १८; पप
४१८: ११; पाशु २, २३; वरा
२, ६३; कलि ३; गु ३०; मत्
३, ४, २०; धिना मैत्रि ६, ९;
अना २९; नाप ३, ५२; योच
९८; १०७; वा ३७; शां १, ७,
१; जाद ३, १३; प्रा १, १; गोच
६९: १५; सार २३६: ५; शि
६, २२९; सिद्धि २२: १८; तारा
८४: १०; धिम् बृजा ७, ७; इ
१६: २; वउ ६, २; भव १, ५८;
४, १७; -० धे योशि १, २५; ५१;
६१; ६, ५८; गोउ ६१; -धे: नाप
३, ७७; -धौ सार २८८: १८.
विधि-चेष्टित- -त्म् भव १, १२.
विधि-ज्ञ- -ज्ञ: इ १६: २.
विधि-रष्ट- -ष्ट: गी १७, ११.
विधि-निषेध-मार्गा(मै-अ)-
ननुसारि(न>)णी- -णी सार
२८७: ५.
विधि-निषेध-विवेक- -क:
त्रिभि ५, ६.
विधि-निषेध-स्मृति- -त्या सार
२३१: १७.
विधि-भस्म-धारण- -णम् भ
१, ७.
विधि-सुख- -ख: सु २, २, ५६;
-खेन वरा ४, ३७.
विधि-वत् सु १, १, ३; ३, २, १०;
नाप १, २; ३, ५; २३; रार ४,
९; शां १, ७, ९; योशि १, ११;
मु १, २, ६; सु २९, ५: ३; शि १, २.
विधिवद्-गुम्(ह-उ)पदिष्ट-
वेदा(द-अ)विरुद्ध-मन्त्रा-

(न्त्र-अ)भ्यास- -स: शां १, २.
विधि-बल(भ>)भा- -भा सर
३, ५.
विधि-शेष-
विधिशेष-यन् मत् ३, ३, ५.
विधि-दान- -नम् बृजा ४, १; २.
विधि-हीन- -नम् गी १७, १३.
विध्या(धि-आ)दि-
विध्यादि-वत् मत् ३, ४, ४७.
विष्यु(धि-उ)क-
विष्युक-कर्म-संयुक्त- -क्त:
जाद ५, २.
विष्युक-कर्म-संक्षेप- -पात्
नाप ३, ८.
विष्युक-कृष्ण-चन्द्रा-
यणा(ण-आ)दि- -दिभि: शां
१, २.
विष्युक-मन्त्रा(न्त्र-आ)-
वृत्ति- -त्या नाप ३, १०.
विष्युक-लक्षण- -णम् पाशु
२, ६.
वि-धेय-
विधेया(य-आ)त्मन्- -त्मा गी
२, ६४.
वि-हित- -त: वृ १, २, ३; अशि ५,
१५; -ता: गी १७, २३; -तान्
गी ७, २२; -तेषु त्रिना २, २५;
-तै: कुं ४.
विहित-वर्मेन्- -र्मं मं २, ४, ४.
विहित-तत्त्वच्छान्ति-पुरा:सर-
-रम् सु १, १, ४१.
विहित-रव- -र्यात् मत् ३, ४, ३२
विहित-प्रतिपिद्धा(द-अ)वैय-
ध्यां(ध्वं-आ)दि- -दिभ्य: मत्
२, ३, ४२.
विहिता(त-अ)विहित- -तेषु शा
१, १.

वि/धाव्(गती), विधावति क २, १,
१४; गु ४३.

विधु^१-

विधु-द^१- -दम् पा ८, ५.

वि/ध्व, विध्वनुते वृ १, १, १.

वि-धूत-

विधूत-पाप- -पम् सार २९१: ३

विधूत-विधिमिषेध-कृत्याकृत्य-
गुणागुण-भावाभाव- -व: सार
२८०: ९.

वि-धूप सुं ३, १, ३; छां ८, १३, १;

त्रिभि ८, १३; सार २३६: ९;

२५५: १०; २९०: १७; २९१:

३; २९२: १; १२; १४; सु २९४:

४; शि ७, ११६.

वि-धूम- -म: ब्रवि ८; १ प्र ३१: १३;

-मे नाप ६, ६; १ संत्या २, ७३.

विधूमा(म-आ)भि-सम-प्र(भ>)-

भा- -० मे व ४५८: १९.

वि/ध्व, > धारि, विधारयन्ते प्र २, १;

विधारयामि प्र २, ३; वि-

धारयाम: प्र २, २.

वि-घरण- -ण: वृ ४, ४, २२; मैत्रि

७, ६; ७; वा २४.

विघरणी- -णी वृ ६, ३, १.

रवि-धर्मन्^१- -र्मन् मना १, १५५^१.

वि-धारयितव्य- -व्यम् प्र ४, ८.

वि-धृत, ता- -सम् शा २६; -ता:

-ते, -तौ वृ ३, ८, ९.

विधृत-नव-ज(प>)पा- -पाम्

व ४२७: १.

विधृत-विधिध-भूप- -पम्

द ३.

वि-धृति- -ति: छां ८, ४, १.

वि/ध्वंस, > ध्वंसि, विध्वंसते छां

१, २, ८^१; विध्वंसते छां १, २, ७;

वृ १, ३, ७.

h) ब्रपा द. । h) 'विन्देत्' इति शब्दा. । c) °धिवद् भस्म° इति निसा. । d) 'वित्ततः' इति शब्दा. ।

e) °सा° इति शब्दा. । f) वा. क्रिधि. द. । g) व्यु. ? = चन्द्र- । h) उस. उप. < √ दम् (द्व. पाठो). । i) कर्तारि

कृत. । j) वैप१ यद. । k) श्र ९, ९७, ४० ।

विध्वंस्युः छा १, २, ५.
 विध्वंसय-विध्वंसय त्रिधा ३,
 ३१; व ४३० : ११; ४३२ : ३.
 वि-ध्वंसमान-नाः वृ १, ३, ५.
 वि-ध्वस्त-
 विध्वस्त-मोह- -हाः पिंभ ६,
 १३.
 विध्वस्ता(स्त-प्र)शेष-विधि-
 नियेष- -धः आगो २.
वि/नद्
 वि-नद्य गी १, १२.
 - वि-नाद्-
 विनाद-कृत्- -कृत् जाद ४,
 ३२१.
वि-नद्धि- -द्धिः वा २३.
वि/नम्
 वि-न(त)>ता^{१०}-
 चैनतेय^{१०}- -यः क ६३ : ४; गी
 १०, २०.
वि-नय- वि/नी द.
वि/नद्धं
 वि-नद्धे-
 विनद्धि^{१०}- -द्धिं छां २, २३, १.
वि/नश्(अप्रशोभे),>नाति, वि-
 नश्यति ससा १, २२^१; ३२; नाप
 ३, ४१; त्रिधा २, १५६; स्क ३;
 त्रिवि ३, ५; योशि ४, १३; जाद
 ६, ४४; इ १३ : १०; व ४५९ :
 ५; सांख १, ४४; गी ४, ४०; ८,
 २०; विनश्यतः अज ५, ५३;
 यो १, १; विनश्यन्ति त्रिवि ५,
 ८; शां १, ३, १२; महा ३, ५०;
 जाद ६, ३१; ३३; ४५; पु २८.
 विनेशुः वृ १, ३, ५; विनद्धयति
 गी १८, ५८.
 विनाशय महा ४, १०२; द्रुत
 ७० : १५; गी ४२२ : २; व

४३६ : १४; विनाशय-विनाशय
 व ४५८ : ३१; विनाशयेत् ते ३,
 ६०^१; ६५^१; ६६; ६७^१; ६८^१; ६९;
 राठ ५, १३; १४; १५-२२.
 वि^{११}लनीनशत् नी १, ३.
 वि-नश्यत्- -श्यति नरा २, ६६;
 -श्यसु ससा १, ३२; गी १३,
 २७.
 वि-नश्वर-
 विनश्वर-फल- -लैः राठ २, ३८.
 वि-नष्ट, छ- -ष्टः भव १, २४; -ष्टम्
 योशि १, १२४; पा ७, ३; सिशि
 ३८० : ८; -ष्टायाम् सर ३, २१;
 -ष्टे यो १, १.
 विनष्ट-दिग्-अम- -मस्य महा
 ४, २७; वरा ३, १५.
 वि-नष्टि- -ष्टिः के २, ५; वृ ४, ४,
 १४.
 वि-नाश- -शः गी ६, ४०; -शम्
 ई १४; छां ८, ११, १२; श २३;
 त्रिवि ३, ५; गी २, १७; -शस्य
 सांख १, ४४; -शाय गी ४, ८;
 -शेन ई १४.
 विनाश-दशेन- -नाद्य सांख २,
 २२.
 वि-नाशि(त)>नी- -नी नाप २,
 १५.
 यिना^१ मैत्रि ६, १४; मैत्रे २, २२; वृजा
 ४, ५; निरटः वसु १५; ते १, ४७;
 नाद ५६^१; अवि ३२; नाप २;
 त्रिधा २, ६२; मिर्षा २२८ : १८.
 वि-नायक- वि/नी द.
 वि-नि/क्षिप्, विनिक्षिपेत् वृजा ३,
 १८; स ३७२ : ९.
 विनि-भ्रत्- विनि/हृत् द.
 वि-नि/धा, विन्यधपाय वृ १, १०.
 विनि-हित- -नम् सार २८३ : ३.

वि/निन्द्, विनिन्दन्ति वृजा ५, १५.
 वि-नि/यम्(यमने)
 विनि-यत्- -नम् गी ६, १८.
 विनि-यम् गी ६, २४.
वि-नि/युज्>योति, विनियुक्ते प्र
 ३, ४.
 विनियोजयेत् खे ५, ५; ६, ४;
 राठ २, ३; ८२; ९६.
 विनि-योग- -गः मना २, ३५४^१;
 काला २; शु १, १८; २, ५^१; राठ
 २, ३६; ९९; १०२; इ ६; सवि
 १०; म १, ६; सू ३; गह २;
 सर १, ४; २, १-३; वा ४; नाप
 ४, १८; लां २१३ : ४; सू ३;
 कालि ४०३ : १३; व ४२६ : ४;
 ४५९ : १८; हंयो ३; वज ६,
 १५; योषु ३, ६; -नाम् मना २,
 ३३४^१; -नाम् जाद ६, २१.
 विनि-योजित- -नाः महा ५, १०५.
 विनि-योज्य त्रिधा २, २०.
वि-निर/गम्
 विनिर-गत, ता- -ताः नाप ५, ६;
 -नाम् मैत्रि ७, ११; -ताः मैत्रि
 ६, ३०; भव १, ५५.
 विनिर-गस्य त्रिवि ५, १२.
वि-निर/शा, विनिर्शायेत् वृ ४,
 १, ५.
वि-निर/णी(<गी)
 विनिर-णीत, ता- -नम् महा ३,
 १२; -ना योशि ४, १३.
 विनिर-येत्- -ना महा ५, ११५.
वि-निर/दिद्, विनिर्दिशेत् म ३,
 ११^१.
वि-निर/धू
 विनिर-धूय गी १, ५०.
वि-निर/भिद्
 विनिर-भिद्य योशि २, १३.

a) 'नाद्' इति निशा, अघना, वति, शेषः द. (द्र. अग्रा. संदि.) b) = गदस्त्रनती- c) = गदस्त्र-
 d) = सामागानविशेष- । e) 'नश्यति' इति अघना. । f) मध्य. वै ११ यद. । g) तैशाभा १०, २५, ।
 h) तैशाभा १०, २३ । i) 'सामाविशेष' इति निशा, मान. ।

वे-निर्/मथ्

विनिर्-मथ्य शि ७, १३२.

वे-निर्/मुच्> मोक्ष, विनिर्मुच्यते
प्र ५, ५.विनिर्-मुक्त- -क्तः प्र ५, ५; १योत
१३; नाप ३, ५२; त्रिप्रा २,
११०; योशि १, ११; १६; अध्या
५४; -क्तम् महा ४, ६६.विनिर्मुक्त-भव-सागर- -रः
अद्वै १३.विनिर्-मोक्ष- -क्षः वृजा ५, ९; जाद
१, १८.

वि-निर्/या, विनिर्वाति महा ५, ६७.

वि-नि/विद्(ज्ञाने), > वेदि, वि-
निवेदयेत् शि ६, १-३; ६; १५;
२५; २९; ४७; ४८; ५१; ५४;
६१; ७६; ८५; ९६; २७६.

विनि-वेदित- -तम् शि ६, ११.

विनि-वेद्य शि ६, १३.

वि-नि/वृत्, विनिवर्तते गौ २, १८;
४, ७९; वरा २, ७०; सांका ५९;विनिवर्तन्ते गौ २, ५९; वि-
निवर्तते गौ १, १८.

विनि-वर्त्ये श्ये ६, ३.

विनि-वृत्त-

विनिवृत्त-काम- -माः गौ १५, ५.

विनि-वृत्ति- -त्तिः जाद १, ११.

वि-नि/विद्य> वेदि

विनि-वेदि(त>)ता- -ताः गु ५.

वि-नि/श्वस्

विनि-श्वस- -सः अना ३४७.

वि-नि(स्)>श्/चर, विनिश्चरन्ति
वृ २, ४, १०; ४, ५, ११.वि-नि(स्)>श्/चि, विनिश्चिनु नाप
८, ५.

विनिन्-चय- -यः गौ १, ६.

विनिन्-चित- -तम् ते ५, ५६०;

-ताः गौ १, ८; -तैः गौ १३, ४०.

वि-नि(स्)>प्/कम्प

विनिप्-कम्प- -म्पः अना २३०.

वि-नि(स्)>प्/क्रम्प>क्राम्

विनिप्-क्रम्प कुं ६१.

विनिप्-क्रान्त- -न्तम् मयि १६६.

वि-निप्-क्रि(या)>य- -यः अध्या
४३.

वि-नि/हन्

विनि-हन्- -हन् सं १२.

विनि-हित- विनि/धा प्र.

वि/नी

वि-नय- -यः गौ ४, ८६; -यात्

सार २३० : १३; -येन त्रिवि १,
४; ८, १७.

विनय-भाव(व-आ)प(क्ष>)-

आ- -आः सार २३४ : १६.

विनया(य-अ)न्वित- -तः ध्या
२९; जाद १, २.वि-नायक- -कः वृ १, २१; -कम्
शां १, ५; जाद ६, ४०; वृ १,
१९; ३, ६२; -कस्य वृ १, २६;-काः गौ २, ३; २६; ६२; वपू
२, ४; -काय गौ २, ६६; -केषु
गौ २, ६३६.वैनाय(क>)की- -की वपू
२, २.विनायका(क-अ)धिदैव- -वम्
रुजा २, ७.

वि/नुद्, विनुदन्ति मैत्रि ६, २७;

वि...नुदस्व व ४६० : १६४^h.

वि-नोद्-

विनोद्-तस(ः)>काम १७.

विन्दमान- /विद्(तामे) प्र.

विन्दु- =विन्दु- गपू.

विन्द्य- -न्ध्यस्य व ४६५ : ८.

विन्ध्य-वासि(र>)नी- -नि व

४२७ : १९; -नीम् व ४२७ : १४;

विन्ध्या(न्ध्य-अ)टवी- -ट्याम् ते
६, ७८.

वि-न्य(नि/अ)स्(क्षेपणे), विन्त्यमेत्

आद ५; रार २, ११; २२; ४३;
८३; जाद ३, ६; शि ७, ४७.

विन्ध्य(नि-अ)स्त-

विन्ध्यस्ता(स्त-अ)मृत-भाग-
-गेन वि २८.विन्ध्य(नि-अ)स्य १योत ११३; योचू
१०७; रार २, ५३; ८३; शां १,
३, ४; अत्य ६; त्रिप्रा २, २७;

३, ४; शि ६, ८५; स्या ९.

विन्ध्या(नि-अ)स्त-

विन्ध्यासा(स-अ)र्थ- -र्थम् शि
३, ७.

वि-पत्त- -क्षम् नाद ३२.

वि/पद्>पाटि

वि-पाटित- -तः कौ ४, १९¹.

वि-पाठ्य नाप ६, १६.

वि/पण्

वि-पण-

विपण-ग- -गाः अक्ष १, ३३.

वि/पत्त>पाति, विपतेत् छां १, ८;
६; ८.विपपात वृ ३, ९, २६; वि-
पतित्यति छां १, ८, ६; ८; १०;९-११; ११, ४; ६; ८; वृ ३, ७;
१; ९, २६; व्यपतत् वृ ३, ९, १;
व्यपतित्यत् छां १, ११, ५; ७;

९; ५, १२, २.

विपातयतात् वृ १, ३, २४.

वि/पद्, वि...पद्यते आर्षे ८ : २०;
९ : ८.

वि-पद्-

विपद्-ध(न्तु>)न्त्री- -न्त्रीम्
तुल ७० : ६.

a) गु. गपू. पृ४६००। b) ननि^० इति अच्चा। c) वि, जि^० इति अच्चा। d) तम् इति SCHR. पाभे.
[वैतु. वे. (NIA २, २३१)]। e) म्पम् इति आन.। f) 'निष्कामति' इति अच्चा।। g) के इति आन.। h) श्र १०,
८४, २। i) व्यु इ^० =पर्वतविशेष-। j) पतितः इति अच्चा।।

वि-पद्यत्- -चत्(१२^०) आर्षे ७ :

१३.

वि-पन्न- -न्नम् स ३७९ : १३.

वि/पन्

वि-पन्त्यु- -न्यवः आरु ५; स्क १५; वृजा ८, ६; वृप् ५, २१; सुबा ६; राउ ५, २९; पै ४, २३; ता ३, ९; वरा ५, ७७; सु २, २, ७७^०.

वि-परि/पत्

विपरि-पत्य वृ ४, ३, १९.

वि-परि/लुप्

विपरि-लोप- -पः वृ ४, ३, २३; ३०.

वि-परि/वृत्, विपरिवर्तते महा ५,

८६; गौ ९, १०.

वि-परी(रि/इ)

विपरी(रि-इ)त्, ता- -तः योशि १, १३१; -तम् कठ ७; कथु ३, ७; सांस् २, १५; सांका १०; गी १८, १५; -त्ता वरा ५, ३६; -तान् गी १८, ३२; -तानि गी १, ३१; -ते क १, २, ४; मैत्रि ७, ९; -तेन नाप ६, ३०.

विपरीत-(ग>)गा- -गा ध्या ७९; योचू ५२; शां-१, ७, ४३; योशि ५, ४०.

विपरीत-मुख-द- -दाय सार २५१ : २३.

विपरीत-सुरत-नृत्य-कला- -कोवि(द>)दा- -दा सार २३८ : ११.

विपरीता(त-आख्य>)ख्या- -ख्या १योत १२२.

विपर्यै(रि-अ)य- -यः योपू १, ८; प्रसू २, १५; -यम् सार २४८ : १७; -याप् सांस् ३, २४; सांका

४४; ४५; ४२; -ये गौ ४, ४६; नाप ३, १२; -येण वसू २, ३, १४.

विपर्यैय-भेद- -दाः सांस् ३, ३७; सांका ४७.

विपर्यैया(य-अ)शक्ति-मुष्टि-सि- -दया(क्षि-आख्या>)ख्य- -ख्यः सांका ४६.

वि-पर्यै(रि/अ)स्(क्षेपणे)

विपर्यै(रि-अ)स्त- -तः १भव १७; -स्तम् सांका २३.

विपर्यै(रि-आ)स- -सः गौ ४, २७; -सम् १भव १८; -सात् गौ ४, ४१; सांका १९; -से गौ १, १५.

वि-पलीलि(<रि/इ), विपल्येति

वृ ४, ३, २-६.

वि/पश, विपश्यति कौ १, ५; वि-

पश्यामः कौ ३, ३^०; न्यपश्यत क २, १, ६.

विपश्चित् - -श्चित् क १, २, १८;

भव २, ३७; -श्चितः श्वे २, ४^०; नाप ४, ३१; यो २, ४३; गी २, ६०; -श्चिता तै २, १, १; वृजा ५, ११; १३; सु १, १६; -श्चिताम् अथा ६०.

वि-पाटित-वि-पाख्य-वि/पद् द.

वि-पाप- -पः वृ ४, ४, २३; -पम् मना २, १२, ३^०.

वि-पाप्मन् - -प्मा मना २, ६५^०; ६६^०; लि ३१० : १०^०.

विपिन-

विपिनो(न-उ)प(मा>)म- -मः अन्न १, ३३.

वि/पुद्

वि-पुल- -ल अक्ष ५; स्वार शि ६, ५६; ६५; २०९; २३०; ७, ७३.

विप्र^० - -प्र महा ५, ५२; १८५; जाद १, ९; ६, २४; -प्रः व २; वृजा ४, ११; नाप ३, ७८; त्रिवा २, १२; पत्र ३, २; ४; १३; शा ४; इ १५; ११; १७; २२; २३ ३५; ३; तुल ७१ : २०; सु २९४ : १३; भव २, ३४; -प्रम् इ १७; १६; स ३७९ : १३; -प्रस्य श्वे २, ४^०; शि ४, ६४; -प्राः श्वे २, ४^०; प्रिता ५, १; गोपू १५; शा ३५^०; तुल ७१ : १३; कालि ४०२ : ३;

- -प्राः सर ३, १०; -प्राणाम् गौ ४, ८६; मना २, १३, १^०; २, ४०^०; रा १, ७; शा १०; विव ४४२ : १९; ४४८ : २; ४५२ : ९; वपू १, १^०; -^०प्रातः आरु ५; वृजा ८, ६; वृप् ५, २१; सुबा ६; स्क १५; राउ ५, २९; पै ४, २३; ता ३, ९; वरा ५, ७७; सु २, २, ७७; -प्रेण वृजा ५, ७; स ३७९ : ३; -प्रैः नाप ४, ३८.

विप्र-चिति^० - -त्ति; -त्तेः वृ २, ६, ३; ४, ६, ३.

विप्र-त्व- -त्वम् शा ४.

विप्र-सुख्य- -ख्यानम् नाप ६, ९.

विप्रे(प्र-इ)न्द्र- - -न्द्र महा ५, १६५; जाद ३, ५; ६, ४१.

वि-प्र/कुक>किर

विप्र-कोर्ण-

विप्रकीर्णो(र्ण-अ)र्ण-कर्ण- (का>)र्ण- -कम् र्वा ३४^०.

विप्र/चि(ग>)स्ता^० - -त्ता कालि ४०१ : ९; रवा ११.

वि-प्रति/पद्, विप्रतिपद्यते गौ २, ७; ४, ३२; विप्रतिपद्यते वृ ६, २, ३.

म) पा. इ यनि. क्षोपा द. (वि. व.)। b) श्र १, २२, २१। c) वेपर यद.। d) °प[ग]° इति आत्मा। e) हि व° इति आन.। f) श्र ५, ८१, १। g) °पामम् इति तैष्वा १०, १०, २। h) तैष्वा १०, ५१-५४, १; ६०, १। i) तैष्वा १०, ५५-५६, १; तैष्वा १०, ६६, १। j) तैष्वा १०, ५१, १। k) द्यु. १ = वन-। l) शि. प.। m) वरा. वेप १ यद.। n) वाप २, ११। o) श्र ९, १६, १। p) वत. = श्रविचिसेप- (व. शि. वेपर, १ शं. यरवा.)। q) विदीर्णाम्पुत्र° इति निना.। r) द्यु. १ = देवीविसेप-।

वि-प्रति/पिध्
विप्रति-पेध- -घात् प्रसू २, २, १०;
४५.
वि-प्र/सुच्>सोक्ष्
विप्र-सोक्ष- -क्षः छां ७, २६, २.
वि-प्र/युज्
विप्र-योग- -गम् भव १, ४.
वि-प्र/लभ्>म्भ्
विप्र-लभ-
विप्रलभ-सुख-प्रद- -दाय
सार २६१: १४.
वि-प्र/स्था>तिम्भ्, विप्रतिष्ठन्ते,
विप्रतिष्ठन्त कौ ३, ३: ४, १९.
वि-फल- -लम् महा ३, २३.
वि/बुध्, विबुध्यते गौ ३, ३३.
वि-बुध- -धा: कृ २२; पाशु १,
२८.
वि-बोध- -ध: मैत्रि २, ५०.
विबोध-तस(>): नाद २३.
वि/वृ, विमूयात् वृ ३, ४, २.
वि/भज्, विभजामहे नो ३, ७; वि-
भजस्व व ४६०: १६५; वि...
भज सता २, ६३५; व्यभजत्
वपू १, २; विभजेत् शि २, ९.
वि-भक्त- -क्तः नाप ८, १८; -क्तम्
वृ ४, ३, २३-३०; गौ १३, १६;
-क्तान् वृत्त ३, १०; -क्तेषु गौ
१८, २०.
वि-भक्ति^१- -क्तिः २प्र ३४: ६;
-क्तिषु २प्र ३५: १०; -क्त्याम्
२प्र ३५: २१.
वि-भजत्- -जत् मना २, १३, २५.
वि-भज्य मैत्रि २, ६: ६, २६;
अव्य ६; पत्र २; गोपू २५;
सार २३९: १५.
वि-भाग- -गः प्रसू २, ३, ७; ३,

४, ११; -नोन शि २, १.
विभाग-कलना- -नाम् अक्ष ४,
६६.
विभाग-विशेष- -पा: सी १४.
विभाग-शस(>): शु ३, १;
गोव ३६.
वि/भञ्ज्
वि-भ्र- -भ्रः पदं २.
वि/भा, विभाति क २, २, १४; १५;
सुं २, २, ७; १०; ३, १, ४; ७; ये
६, १४; मैत्रि ६, २४; प्र १;
२: १; त्रिवि १, ११; २, १२; ४,
६; ५, १४; ६, १६; १८-२०; २५;
७, ९; १३; १८; २३; महा ४,
२७; ५, ५३; ए ८; पाशु २,
२३; १भव २७; गोपू १६;
१९; वरा ३, १७; सर ३, २२;
य ११; १२; सि १, ११; २, १;
३-४, १; ५, १९; ६, ४; यु ३६;
४५; व ४३७: १३५.
वि-भा-
विभा-चसु- -सो मना २,
६५; -सौ गौ ७, ९.
वि-भात- -तम् कृ ३६.
वि-भाव(त्>)री- -रि व
४३८: १८; ४३९: ५; १५;
४४०: ३; १२; ४४१: १; १०;
२१; ४४२: ९; २०; ४४३: ७;
१६; ४४४: १०; २०; ४४५:
८; १८; ४४६: ७; १७; ४४७:
५; १६; ४४८: ४; १४; ४४९:
२; १२; २०; ४५०: ४; ११; १८;
४५१: ३; १०; १८; ४५२: २;
११; १८; ४५३: २; ७; १४;
२०; ४५४: ३; १०; १६; २३;
४५५: ७.

वि/भाप्
वि-भापित- -तः मुद्र १, ४.
वि/भिद्, >भेदि, व्यभेदस्य छां ५,
१६, २.
विभेदयेत् प्या ६८; शां १, ७,
३७.
वि-भिद्य त्रिवि ५, १२; रापू ४, २२.
वि-भिद्य- -द्यः कृ १८.
वि-भेद-
विभेद-जनक- -के जाद ४, ६३.
वि-भेद्य शां १, ७, ४८; ५०.
वि/भी, >भीषि
वि-भीत- -तैः वपू २, ५.
वि-भीषण^१- -णः रार १, ७; १; -णम्
रार १, ७; रापू ४, २९; ३३; ३६.
वि/भू^१(वभा.), भावि, विभवति सुं
३, १, ९; व्यभवत् वृ १, ४,
११-१४.
विभावयति सुमु २०; विभावय
योशि ४, ६; अक्ष १, २३; वि-
भावयेत् क्षु २०; योशि १, ३१;
अक्षि ४९; वरा २, २६; वि ११;
कालि ४०२: १३; यु ८.
वि-भव- -वैः शि १, ३५.
वैभव- -वम् मुद्र १, ३; ४;
८; २; गोच ६७: १७.
विभव-भूमि- -मयः महा ३,
४; भव १, २६.
विभवो(व-उ)ज्व- -वाय पा
१, २.
वि-भावन- -नः अक्षि ३९.
वि-भावित- -तम् अक्ष ५, ९०.
वि-भाव्य त्रिवि ८, ५; पत्र २;
सुमु ५.
वि-भु- -भु कौ १, ३: ५; -भुः
गौ १, १; १०; मै ५, ७: १;

a) 'अपि फलम्' इति अज्या. । b) 'घाः इति संति., 'धाय इति सात. । c) श्र १०, ८४, २ । d) मि...भ^० इति पा. १ यनि. शोधः द. (तु. खि १, ५०, २) । e) तैश्चा १०, ११, २ । f) श्र २, २३, १५ । g) तैश्चा १०, ५, १ । h) खि ५, ८४, १ । i) 'भुम्' इति निसा. १ यनि. शोधः द. (तु. अज्या., वे.; वैतु. आन. 'भु प्र' इति, J.C., उग्र.) । j) तु. वपू ७७५५८ ।

मैत्रि ६, ७; मना १, ३९^०; अ
 २^०; वृत् २, ८; मन्त्रि ७, १३;
 सहा ४; ते ५, ६८; ६, ३६; श्रुति
 १०३; आबो ७; नाप ८, १;
 त्रिमा १, २; श १७; त्रिवि १,
 ११; पै २, १; १संया २, १३;
 ए ७; अक्ष ४, ६७; गोर २८; छ
 २५; छ १५; पा १, २; चू १३;
 गो ५, १५; -सुम् क १, २, २२;
 २, १, ४; सुं १, १, ६; कै १, ७;
 मन्त्रि १६; नाप २, १५; त्रिमा
 २, १५७; चां ३, २; महा ४, ८६;
 पाशु २, २९; रूह ३२; आद ४,
 ६२; नापू ४, २६; वपू २, २; चू
 १६; मव ३, ४; गो १०, १२;
 -मूनाम् पा १, २; -भो वृजा
 ६, १०; सु २९४ : २२; -भोः
 मन्त्रि ५; चू ५.
 विमु-ता- -ता भव २, ३३.
 विमु-स्व- -स्वम् प्र ३, १२; ते
 ६, २८; सांस् ६, ३६; -ववात् धे
 ३, २१; -स्वेन धे ४, ५.
 विभुस्व-योग- -यात् सांका
 ४२.
 विम्वा(भु-या)कार- -रः त्रिवि
 २, १५.
 वि-भू- -भूः वृ ६, २, ४; मना २,
 ७९९.
 वि-भूत्- -भम् राधा ४, ४.
 वि-भूति- -तिः वृजा १, १^०; सौ १,
 ३^१; -तिभिः गी १०, १६; -तिम्
 प्र ५, ४; गी १, ७; वृजा ६, १; गी
 १०, ७; १८; -वीनाम् गी १०,
 ४०; -तेः वृजा १, १; वपं ३१३;
 १; गी १०, ४०; -स्वे सर १, ४.

विभूति-कल्पतरु- -रवे त्रिवि
 ७, ४३.
 विभूतिकल्पतरु-वन- -नैः
 सि ५, १०.
 विभूति-धारण- -गात् वृजा ७,
 ३; ७^०; जावा १४.
 विभूति-मत्- -मत् गी १०, ४१.
 विभूति-योग- -गम् वृजा ३, १.
 विभूति-रुद्राक्ष- -क्षयोः वृजा
 १, १.

वि/भूप
 वि-भूषण- -णम् भा ३४.
 विभूषण-तस्कर- -री ते ६, २६
 विभूषित- -ता(ताः) शि ६, १८६.
 वि-भेद- -वि-भेद्य वि/भिद् ३.
 वि/भ्रम्
 वि-भ्रन- -मः यो १, ७५.
 वि-भ्रान्त- -न्ताः सार २३१: १८.
 विभ्रान्त-चित्त- -षम् व ४५५:
 १३.
 वि/भ्राज्, विभ्राजते त्रिता ५, १९.
 वि-भ्राजत्- -जत् कै १, ३१९^०; मना
 २, १२, ३१९^०.
 वि-भ्राजमान, ना- -नम् सुवा ८;
 -नाम् अठ २४९^०.
 वि-भ्राजत्- -रः अता १४; द्व ४; गो
 ४, २२.
 वि/मभ्, विमभ्नीरन् वृ ३, १, २५.
 वि/मन्
 वि-मल- -वानि शोधि १, १६४.
 वि-मनस्क-
 वैमनस्क- -रकः वि १५^१.
 विमनस्क-ता- -ताम् महा ५, ६१.
 वि-मर्द- -वि/मृद् ३.
 वि-मल, ल्या- -लः मैत्रे ३, २; नाद २०;

अप्या ११; पा ८, २; -रुम् शु १,
 १८; अभा १, १९; त्रिता १, ३८;
 गोपू ३२; वरा ३, ५; ६; -ला
 अक्ष ५, ५६; म ४८: १३९^०;
 ४९: १९; राधा ४, ३९^१; आष
 ३९८: १०९^१; गार ४०७:
 १९९^१; -लाः महा ६, १६; -ले
 शां १, ७, ३२^१; अश ४, २०;
 -लेन शि ६, १२०.
 विमल-क्रम- -मः महा २, ३९.
 विमल-तर-
 विमलतर-दुकूल(ल)ला- -ला
 ली १, २.
 विमल-स्थिति- -तिः अल ३, २४.
 विमला(ल-या)कृति- -तिः अक्ष ४,
 २६; कठ ८.
 विमला(ल-या)दि- -दीः रा ५५, ६^०.
 विमला(ल-या)म्बर- -रे महा ५,
 १५५.
 विमलाम्बरा(र-प्रा)भ- -भम्
 पै ४, ११.
 विमलो(ला-उ)कर्मिणी-शाना-
 क्रिया-योगा-प्रद्वी-सखे(ला-ई)-
 शा(न)ना- -नाः त्रिवि ७,
 ४८^०.
 वि/माम(मे), विममे नापू ४, ५९^०.
 वि-मान^१- -नम् त्रिवि ७, २२; शि
 ६, १३४; २६१; रा ४२३: १७;
 -नानाम् शि ६, १२८; २०७;
 -नानि पै ४, २; -ने शि ६, २७१;
 -नेत्र शि ६, ५२; -नैः शि ४,
 २७; ६, १०६; २०३; २०५;
 २१४; ७, १८.
 विमान-परंपरा- -नासु त्रिवि ६,
 २३.

a) 'विभूः' इति मा ३२, ८ । b) 'भोः' इति आन. । c) विश्वा^० इति त्रिता, विम्बा^० इति त्रिता.
 धेति, विमबा^० इति मन्त्रा. मंति. । d) तेषां १०, ६३, ११०) =भरमन्- वा देर्यर्द- वा । १) पा. १ म्नि. कोषः ३. ।
 ४) 'ति इति अस्या. । h) 'विभ्राजते' इति पा. [य. भा., गा. (तेषां १०, १०, ३). १८. प्र. ३] म्नि. कोषः ३. [य.
 मू. (तेषां.)] । i) तेषां १, २७, ३. । j) 'स्वः' इति ताग्नि. । k) =राह्यविशेष- वा देवीविशेष- वा । l) 'लाम्ब'
 इति अस्या. । m) 'प्राः' इति आन. । n) पति. इमे छ. अस्या. मंति. । o) श्र १, १५४, १ ।

विमान-यान-ने: शि ६, ६४.
 विमान-वत्-वान् रा ४२३:
 १७.
 विमान-(स्थ>)स्था-स्थाम्
 शि ६, ११८.
 विमाना(न-आ)दि-दिभि: सी
 ३६.
 विमाना(न-आ)यली-लीषु
 सार २७२:१५.
 वि/मार्ग, विमार्गंते जाद ४,५०.
 वि/मुच्, >मुच्, मोचि, मोक्ष, >क्षि,
 विमुञ्चति गी १८, ३५; विमु-
 च्छन्ति नाप ५, १०; महा ४,
 २०; विमुञ्च महा ५, १७२; पितृ
 २, ५; विमुञ्चप(त) सुं २, २,
 ५; विमुञ्चेत् जा १; राउ १, १;
 ता १, १.
 विमोक्षये गी ४, ३२; विमोक्षये
 छां ६, १४, २.
 विमुच्यते क २, २, १; अ ३^b;
 १योत १६; शां १, ७, ४८; ४९;
 पै ४, २०; महा २, ७०; ४, ४८;
 ७२; १२७; योशि १, ३३; ५५;
 १संन्या २, ९८; रुह ३४; कृ
 २६; वरा २, १४; ४४; योरा
 १६; १८; सं २४^a; शि १, १६;
 २३; ७, ११४; महा ६, ३९;
 विमुच्यन्ते वरा ४, ४३; शि १,
 १३; ३२; ३४; विमुच्येत पितृ
 ६, १९.
 विमोचयति सांस् ३, ७३; सांका
 ६३.
 विमोक्षय-विमोक्षय लां २१५:
 १४.
 वि-मुक् -क्त: क २, २, १; सुं ३,
 २, ८; ९; अ ३; जा ६; त्रिवि

१०३; मं २, १, ४; श ३६;
 अक्ष २, ४४; या २, १; शा १९^a;
 मु २, २, ७३; मृ ७; शि ३८१:
 २०; हे १; गु ३८; ८४; गी ९,
 २८; १४, २०; १६, २२; -क्तम्
 १आ १६; -क्ता: मृ ४, ४, ८; शा
 ११; शि ३८२: १७; गी १५,
 ५; -क्तानि सार २, ५०: २.
 विमुक्त-ता-ता महा ५, ४०;
 पागु २, ३१; जाद ६, १८.
 विमुक्त-फल-फल: अता ७.
 विमुक्त-बोध-बोध् सांस् ६,
 ४३.
 विमुक्त-मार्ग-र्ग: कुं २; कद
 १; कथु ३, १.
 विमुक्त-मोक्षा(च-अ)र्थ-र्थम्
 सांस् २, १.
 विमुक्ता(क-अ)ज्ञान-तत्-
 कार्य-न्या: वरा १, १६.
 वि-मुक्ति-क्तये कै १, ९; अक्ष ५;
 ७४; जाद ९, ५; सु १, १, २६;
 शि ७, ११९; -क्ति: तै ३, १०, २.
 विमुक्ति-व-दम् शि ७, १३४.
 विमुक्ति-पादप-प्लया-न्याम्
 भव १, ३०.
 विमुक्ति-प्ररोसा-सा सांस् ५,
 ६८.
 विमुक्ति-श्रुति-ति: सांस् ६,
 ५८.
 विमुक्तय(कि-अ)भिमुख-निवृ-
 त्ति-मार्ग-प्रवृत्त-त: मं २,
 ४, ३६.
 वि-मुच्य गी १८, ५३; शि २, ३१.
 वि-मुच्यमान-न: वृ ४, २, १;
 -नस्य क २, २, ४.
 वि-मोक्ष-क्षात् त्रिशा २, १७;

-क्षाप मृ ४, ३, १४-१६; ३३;
 गी १६, ५.
 विमोक्षा(च-अ)र्थ-र्थम् सांका
 ५८.

वि/मुह, >मोहि, विमुहति मु २, २,
 ५९; गी २, ७२.

विमोहयति गी ३, ४०.

वि-मूढ-ढ: गी ६, ३८; -ढा: मैत्रे
 १, ४, १३; मु २, २, ४७; गी १५,
 १०; -वेन योशि ४, ३३.

विमूढ-भाष-व: गी ११, ४९.

विमूढा(द-आ)त्मन्-स्मा योशि
 ४, ८; शि ७, १२१; गी ३, ६.

वि-मोह-हाप गोपू ४२.

वि-मोहि(र>)नी-नीम् पितृ ६,
 १४.

वि/मृग्

वि-मृग्य-ग्य: त्रिवि १, १^a; -ग्यम्.
 त्रिवि ७, १७.

वि/मृज्

वि-मृज्य वृजा ३, ३०; ४, १.

वि-मृत्यु-

-स्यु: क २, ३, १८; छां ८,
 १, ५; ७, १; ३; मैत्रि ६, २५; ७,
 ७; -स्युम् मै ५, ४^a?; मैत्रि ६, ४;
 २५; ७, ५.

वि/मृद्, विमृदीयात् शि ७, ५२.

वि-मर्द-र्द: सी २, ८.

वि/मृध्

दु^१वि-मृध-ध: मना १, ९; २, ५५;
 व ४६४: १.

वि/मृश

वि-मृश्य गी १८, ६३.

वि-मृष्ट-ष्टम् छां १, १, ४.

वि/मृलै >म्ला, व्यम्लास्वेताम् छां
 ५, १७, २.

वि-यत्-यत् तै २, ३; ४, १७;

a) >थ = दक्षिणपथीय: सामान्य: लैवि. इति कृत्वा यनि. शोध: द. [तु. गपू. (४३३१)]/जान् > जानय
 (वैद. विधु. [IHO १७, ८९] उभयत्र नैत्र. वर्णविकार इति ?)। b) 'मुच्यते' इति आन.। c) 'कम्' इति अच्चा.।
 d) 'स्युल: वि' इति निसा.। e) अत्रि^० इति निसा. यनि. शोध: द. (तु. मैत्रि ६, ४)। f) मृ १०, १५२, १।
 g) वैपरी यद.। इह = आक.श-, हकार-बीजाक्षर-।

पा ८, ९; नत् २, ३, १; -यति पा ८, ५; ९, १०.

विपत्-सम् (>) पा १, ६.

विपत्-स्वरूप-पम् घ्या ९, ७.

विपद्-भादि-पञ्चक-कम् पे २, २४.

विपद्-भादि-सर्ग-संयुक्त-कम् सू ३.

विपद्-इंकार-संयुक्त-कम् दे १११.

वि/युज्, वियुज्यते नाद १२; १७.

वि-युक्त-क्तः अक्ष ५, १००.

वि-योग-गाय अक्षि २३.

वियोग-साक्षि (>) णी-णी भव १, २३.

वियोगा(ग-ञ्)न्व-न्ताः सांस् ५, ८०.

वियोगो(ग-उ)पदेश-शः निवा २९७; ४.

वि-मूय-भानि सार २६३; १६.

वि-रज्ज, जा-जः क २, ३, १०; प्र १, १६; वृ ४, ४, २०; २३ मना १, १३७; अक्ष ४, ३०; ए १०; वृ ४०; जम् मुं २, ३, ९; कै १, ६; अ १; पा १०, ३; जा कौ १, ३७; लु १६७; योशि ६, ५७; गार ४०७; २०७; जाः मुं १, २, ११; घ्या २४; वरा ४, ३८; जाम् कौ १, ३७; ४७.

विरजा-नदी-नीम् विवि ५, १३.

विरजा(ज-ञ्)नल-ज-जम् वृजा ३, ३४; ५, ३; ४.

विरजा-होम-सम् नाप ४, ३८; पप ४१८; १८.

वि-रज्जम्-जाः मना २, ६५; ७.

६६; लि ३१०; १०७.

विरञ्जि-ञिः जाद ४, ३५; हे ४.

विरञ्जि-रूप-पात् महा ५, १६४.

वि/रञ्ज्, विरञ्जेत् जा. षः नाप ३, ७७; पप ४१८; ६; या १, १.

विरञ्ज्यते शि ४, २८; सांस् ३, ६६; विरञ्ज्येत्^३ नाप ६, २०; विरञ्जेत् मु २, २, ६६.

वि-रक्त-क्तः नाप २; ३, ९; १३; १८; ६, १; ७; योशि १, २४; १संन्या २, १; पप ४१८; ६; शि ४, ३१; कालि ४०२; २०; हंपो १८; कस्य नाप ६, २०; जाद ६, ४७; सांस् २, २; ३, २३; -क्तः योशि १, ४८; कालाम् रार ५, १६; ७७.

विरक्त-सनस-नसाम् महा ६, १६.

वि-रक्ति-क्तिः नाप ६, २०; -क्त्या जाद २, ६.

विरक्ति-द-दम् वृजा ५, ६.

वि-रज्ज नाप ६, १६.

वि-रजा-जाः महा ५, १६५; सांका २३; नाम् अक्षि ४; माः विद्या ४. वैराज्य-र्यम् मै १, १; मैत्रि १, २; मैत्रे १, १; २, १५; ते २, ३८; नाप ३, १५; ७७; ५, ३३; ६, १; ७, २ अथ ३३७; ३; विवा २, २८; द १६; विवि ५, ९; राप् १, ५; महा १, १; योशि १, ३२; १संन्या २, ६; जाद ६, ४६; शि १, २६; भव १, १; पिं ६, १०; योत् १, १५; गी १३, ८; १८, ५२; -र्यस्य भाष्या २८; ४१; -न्यात् विवि ५, ९; महा

६, ७५; सांस् ३, ३६; सांका ४५; -न्याय सांस् ६, ५१; -र्ये वि १२; -र्येण महा ६, ७४; गो ६, ३५.

वैराज्य-जनक-कम् मैत्रे २, २३.

वैराज्य-नैल-संपूर्ण-जें द १५.

वैराज्य-दायिन्-यिते या २, २१.

वैराज्य-पूर्व-र्वम् महा ५, २७; वरा ४, ३.

वैराज्य-बोध-कर-रीः नाप १.

वैराज्य-भाय-भवः मं १, १, ४.

वैराज्य-मूर्ति-तिः तुष ४.

वैराज्य-रंहन्-हसा महा ५, ६५.

वैराज्य-वत्-वन्तः नाप ३, १; १संन्या २, ३.

वैराज्य-संन्यास-सः नाप ५, ३.

वैराज्यसंन्यासिन्-सी नाप ५, १; ७; १संन्या २, १३; ७.

वैराज्य-संपत्ति-चित्क नाप ७.

वैराज्य-स्थान-जम् भ २, १८.

वैराज्या(य-ञ्)दि-षट्ठय-सम् वरा २, ३.

वैराज्या(य-ञ्)भाव-ने नाप ५, १; १संन्या २, १३.

a) 'दा' इति निता. यवि. शोधः द. (ग्र. अण्णा.)। b) तैष्वा १०, १, १३। c) 'जाः इति अण्णा.।

d) = नदीविशेष-। जरा इति आन., शांका. (३, ३), 311v., 3C., वे.। e) = नादीविशेष-। f) = शक्तिविशेष-।

g) 'जाम् इति आन., शांका. (३, ३), 311v., 3C., वे.। h) तैष्वा १०, ५१-५४, १: ६०, १। i) तैष्वा १०, ५५-५६, १; तैष्वा १०, ६६, १। j) तैष्वा १०, ५१, १। k) म्यु. ३ = १प्रद्वन्-। l) 'रीमः इति अण्णा.। m) निमा. 'विराज्ये'

इति शोधः द. (ग्र. अण्णा.)। n) वा. किवि. द.।

वैराग्यो(त्य-उ)पल-घृष्ट-
-ष्टेन तु २४.

विराग-कारण- -णम् मु २, २,
६६.

विराग-ता- -सा वरा २, ३.

विरागिन्- -गी वरा २, ३५.

वि-रस्थिन्- -स्थी वा १^{१६}.

वि/रम्, विरमति वृप् २, ९; गु
३३.

विरराम महा २, १३.

वि-रति- -ति: यो १, ६०; -ते: महा
५, ३०.

वि-राम- -म: ते १, ३०.

विराम-प्रत्यया(य-अ)भ्यास-
पूर्व- -वं: योम् १, १८.

√विरामि, विरामयति वृप्
२, ९.

विरल-

विरल-त्व- -त्वम् १ भव २०.

वि/रह्

वि-रह- -ह: सार २४१: ६.

विरह-भाव- -वेन सार २४१: ५

विरहो(ह-उ)क्कण्ठित(त>)ता-
-ता: सार २४१: ६.

वि-रहित- -त: अक्ष ५, ९३; -तम्
नाप ६, १.

वि/राज्, विराजते नाप ८, २०; त्रिवि
१, ११, ५, १३, १४^१; ६, १९;

२०, २४; ७, १४, २२, २६, २८;
महा ४, ४३, वरा ३, ५, राधा

१, १८; सार २६५: २०; २३;
२७१: १०; सि १, १०; १४,
२, ११, ३, ८; ४, ९; विराजति

छा २, १६, २; सर २, ५१^६; वि-
राजन्ते महा ४, १९; सार २३९:
५; २५४: १; ३५८: ८; १०;
२३; २६४: २३; २६६: ८;
२७०: २१.

वि-राज्- -राज: सुवा १; पै २, २५;
-राजम् वृष्ट २, ८; सार २४५:

५; -राट् छा १, १३, २; ४, ३, ८;
४४, २, ३; मना २, २९१^६; अ

११^६; वृप् १, ८; २, २१^६; वृष्ट
३, ५१^६; मन्त्रि १३; ते २, १४;

योचू ७५, वृष्ट १^६; नाप २, ११^६; ९,
१३; त्रिवि ६, १२; सार २, ४१^६; ४

४८^६; सुद्र १, ५१^६; पै १, २७;
अव्य ७, सावि १०; यो ३, २२.

जाद ४, ३५; ता १, २; चू १३;
वपू २, १; वज ४, २४.

वैराज- -ज: मैत्रि ७, ४१^६.

सो ४; -जम् छा २, १६, ११^६,
२१^६; योशि २, १५.

वैराज्य- -उपाय छा २, २४,
८.

विराट्-चक्र- -क्रम् चक्र ७.
विराट्-चैतन्य- -न्यम् पै १,
१४.

विराट्(इ^०)-प्यान- -नम् गु ६

विराट्-पुरुष- -प: वृप् ४, १५,
३०^०, नाउ ३, ३, -पस्य त्रिवि

३, ६; -वेण नाप २.
विराट्-प्रणव- -व: नाप ८, १^३;
तु ३; ५, ६.

विराट्-सूत्रारम्भके(क-ई)श्वर-
-रा: ते ६, १०

विराट्-स्थिति-प्रलय- -यो
त्रिवि ३, ७.

विराट्-विरण्यगर्भे(भ-ई)श्वर-
-रा: पै ३, १.

विराट्-रूप- -रस्य गु २४; -पे
योशि ५, ५२.

वि-राजत्-
विराजत्-कर-कमल- -धर-
-न: ६८.

वि-राजमान, ना- -नम् त्रिवि ७,
५०^१; -ना सार २५८: २१;

२६६: १८; -ना: सार २३३:
१२; २३९: १४; २४६: ४;

२४९: ५; २५३: ३; ९; २२;
२५४: २; २६२: १७; २७४:

७, २८४: १; -नानि सार २४०:
१०; २५५: १८; २५८: १५;

२२; २६३: १६; २६७: २०;
२७४: १०; १५; २७५: २३;

२८४: ३.

वि-राजित- -तम् त्रिवि ६, २०;
पाशु २, ३; सार २३९: १२;

सि २, ६; ६, १७, २२.

विराजा^०- -जाम् सुवा १२^१.

विराजा-सुदशाना-जिता-सोम्या-
-म्या(अ)मोघा-कुमारा(रा-अ)-

श्रुता-सत्या-मध्यमा-नासीरा-
शिशुरा(रा-अ)सूरा सूर्या-

भास्वरा-विश्लेष- -यानि सुवा
६१^१.

वि-राज्य- -ज्ये मैत्रि १, २^१.
विराज्य-चक्र- -क्रम् चक्र ८.

a) वैप १ यद. । b) श्रुयो इति पा ? यनि. शोध द्र (तु बाटी, वे) । c) विप. । व्यु ? विर- (=विल- पंजा. विप)+ल-(तु MW.) इति तस । यस. तु वि-+रल-[भाप. <√रल्(मिलने)] इति स्यात् । d) श्र १, ३, १२ । e) वप्रा- वैप १ यद. । f) तैआ १०, २२, १, १। g) =छन्दोविशेष- । h) गपू (ग्र५००) 'दीर्घ-प्लुत-विराज्-> -राट्' इत्यन यनि. च 'दीर्घ-प्लुत-> -त्' इति च शोध- कर्तव्य । i) विराट्प्लु इति निसा ? यनि शोध: द्र. (तु. अख्या.) । j) श्र १०, ९०, ५ । k) =सामविशेष- । l) 'जा' इति निसा । m) पा. ? यनि. शोध: द्र । n) गपू (ग्र५१३) सस्य. 'पुरप-> -प:' इत्यत्र यनि. शोध. कर्तव्य: । o) व्यु. ? =नाडीविशेष- । p) 'जम्' इति निसा ? यनि. शोध द्र (तु. अख्या.) । q) 'वांस्वरावि' इति निसा, 'वांभास्वरावि' इति अख्या. ? यनि. शोध: द्र. (तु. अख्या. संदि.) । r) 'राज्ये' इति मे १, १ ।

श्रिविराट^{1a}-
 श्रिविराट¹- -टः गी १, ४; १७.
 वि-राद्धि^b- -द्धि प्रा १, ५.
 वि/राघ्, विराधियि छा ३, ११, २.
 वि-राम- -वि/रम् द.
 वि/रिच्, > रेचि, विरेचयेत् यो १,
 ३४; जाद ५, ८; ९.
 वि-रेचन- -नम् जाद ६, १३.
 वि-रेच्य शा. १, ७, १; १४.
 विरिञ्चि¹- -ञि: द २०; चक्र-१२.
 विरिञ्चि-नारायण-शंकरा(र-आ)-
 रमक- -कम् स्क १३.
 विरिञ्चि-पद- -दात् नाप ६, १६.
 विरिञ्चि-विष्णु-रुद- -द्रा: स्व ६१:
 २१.
 वि/रिप्य
 वि-रिप्य- -ष्टम् छां ४, १७, ४-६; ८;
 २५ ३३: १११७.
 वि/रुच्, विरोचते छाग २५: १९.
 वि-रोचन^c- -न: छां ८, ७, २; ८, ४;
 न्नेन छां ८, ९, २.
 वैरोचन-
 ७ वैरोचनी- -नीम्
 मना २, १; दे ४; व ४६१: ८;
 ४६५: २०.
 वैरोचन-शङ्ख-पाण्डुर-
 तारक- -कान् तारा ८४: ३.
 विरोचन-वत् सांस् ४, १७.
 वि/रुच्, विरुच्यते गौ ३, १७, १८;
 विरुच्यन्ते गौ ३, १७.
 वि-रुद्- -द्धम् मैत्रे ६, ३४.
 विरुद्-धर्म- -नीं त्रिवि २,
 ११.
 विरुद्-धर्मा(र्म-अ)प्यास-
 -स: सांस् १, १५२.

विरुद्-वैकुण्ठ-मासाद्-प्राकार-
 विमानाद्या(दि-अ)नन्त-वस्तु-
 भेद- -व: त्रिवि ८, १.
 विरुद्धो(द्-उ)भय-रु(प>)पा-
 -या सांस् १, २३.
 विरुद्धो(द्-उ)भया(य-आ)-
 रमक-
 विरुद्धोभयारमक-स्व- -स्वम्
 त्रिवि २, ११.
 वि-रोध- -ध: त्रिवि २, १२; ४, ३;
 व्रस् १, ३, २७, ३, ३, २९; -धे
 त्रिवि ३२.
 वि रोधि(न>)नी^d- -नी कालि
 ४०१: ९; श्या ११.
 वि/रुद्, ७ विरोहसि मना १, ८; व
 ४६४: ७.
 वि-रूप, पा^b- -पम् साका ८; -पा गार
 ४०७: १८७¹; -पात् छा २,
 १५, २.
 वैरूप¹- -पम् छां २, १५, १;
 २; मैत्रि ७, ३.
 वैरूप-वैराज¹- -जे कौ १, ५
 वैरूप्य- -प्यम् अक्ष ४, १२.
 विरूपा(य-अ)क्ष^c- -क्षम् मना २,
 २३७²; वृष १, १२७²; रुद ७,
 भ २, ३; जाद २, २; सृ ४;
 १५७²; १८; २ त्रिसं ३०७²; व
 ४६४: १२७²; -क्षेण नी ३, ५.
 विरूपाक्ष-महाकाल- -रु: हंपो
 २.
 विरूपा(य-आख्या>)प्य- -प्ये
 अक्ष ४, २१.
 १ विरोदसी¹ मना १, १४.
 वि/लच्, विलक्ष्यते अथा ३२.
 वि-सत्तण- -ण: के १, १८; वृउ २,

२; वरा २, ११; -णम् अन्वाद् ६;
 ससा १, ३८^m; कुं २३; जाद ६,
 ४९¹; -णा शि १, १०².
 वेलक्षण्य- -ण्यम् वरा १, १५;
 -ण्यात् व्रस् २, ४, १९.
 विलक्षण-ता- -तया भव २, ३०.
 विलक्षण-स्व- -स्वात् व्रस् २, १, ४.
 वि/लग्
 वि-लम्- -मा: गी ११, २७.
 वि/लह्
 वि-लक्ष्य १ अव २.
 वि/लम्ब
 वि-लम्बित- -तम् १ योत ४०.
 वि-लम्बि(न>)नी¹- -नी योशि
 ५, २०; -न्याम् योशि ५, १८.
 वि-ल्य- -वि/लो द.
 वि/लस्, विलसन्ति त्रिवि ६, ८.
 वि-लसत्-
 विलसत्-क(च>)चा¹- -चा
 अक्ष १, ५.
 विलसत्-अमृत-दधि- -धया व
 ४५५-१३.
 वि लास- -स: महा ४, ८७; सार
 २४१: १९.
 विलास-सुरत-रत्न-
 विलाससुरतरत्न-व(त>)-
 ती¹-
 विलाससुरतरत्नपर्या-
 (ती-आ)दि- -दप: सार २७०:
 १६.
 विलासिन्- -मिन: महाद् ५९.
 विलासिनी¹- -नी गार
 ४०७: १८.
 वि-लापन- -वि-लापयमान- , वि-ला-
 पिन्- , वि-लाप्य वि/सी द.

a) व्यु! = देवविशेष- । b) वस. उप. भाप. </राप् । c) २४म् इति आन., ० रुद्धम् इति आन. ।
 d) व्यु! = १ प्रथम- । e) 'वरिष्ठम्' इति पा. १ यनि. शोष: द. (तु. गोश्रा १, १, २२) । f) ति १०, १२७, १२ । g) मा
 १३, २१ । h) वैप १ वद. । i) = शक्तिविशेष- । j) = नामविशेष- । k) तीक्षा १०, १२, १ । l) पा. १ (तु. तीक्षा १०, १, १४)
 'अपि रोदसी' इति द्विपद: शोष: द. (तु. ग. ४, ४९७) । m) णज: इति आन. । n) निग. पा. १ 'वि-चक्षण-> -णः'
 इति शोष: द. (उ. अथ्या.) । o) पा. १ णज: इति शोष: द. । p) = नादोविशेष- । q) = सौ. नीजापर- ।

वि/लिख्, विलिख्ये राप् ४, ४४;
४५; ४७; ५१.

वि-लिख्ये सो १, १; सूता ५, ३; ऊ
६३: १०.

वि/लिप्, >लेपि, विलिप्ये कुं २४.
वि-लेपि(त>)ता- -०त्ते त्रिता २,
७०.

वि/लिङ्, विलिङ्छ छाग २५: ७.

वि/ली, >ला > लापि, विलीयते

सुवा २; नाद ३८; ३९; ४१;

प्रवि १३; राव ५, १३; १८; शां

१, ७, २१; पै २, २०; ३, १; महा

४, ५५; ११५; योशि ३, १२;

३५; अक्ष ४, ६२; यो १, ७४;

अव ५, १५; विलीयते नाद ५०;

योशि ६, ७१; विलीयन्ते सुवा

२; कुं १४; गु २७; विलीयताम्

१अव २५.

विलापयेत् अक्षि ४५.

वि-लय- -यः त्रिवि ३, ७; -यम्

ध्या २५; सं ५, १, ५; शां १, ७,

२३; पै ३, १; ४, १४; योशि ६,

२१; अध्या ३७; ५०; यो २, ३९;

-ये त्रिता १, ४.

विलय-कारण- -णम् त्रिता १, १.

विलय-विलास- -मः स्व ६०: १.

विलयिन्- -यी १अंन्या २, १४.

वि-लापन- -नात् अक्षि ३४.

वि-लापयमान- -नः सार २९२: २

१३.

वि-लापि(न>)नी- -नी अक्ष ५,

८२.

वि-लाप्य अध्या ७; सु २, २, ५०;

वि-लीन- -नः हं ८; योशि १,

६४; -नम् छां ६, १३, २; पै १,

८; अक्ष ४, ७८; ५, ४२; ११०;

अध्या २४; त्रिता २, २; -ने

गैशि ६, २४; कै १, १३; हं २१;

वरा २, ६२.

विलीन-ता- -ताम् योशि १,

१२६; १३५.

विलीन-पारा- -नाः नाद २०.

विलीना(न-अ)शान-तात्

कार्य- -यें वरा २, ५९.

विलीना(न-अ)शमन्- -ना

अध्या ४३.

वि-लीयमान- -नम् सार २९२: १४.

वि/सुप्, विलोप्सीय छां ३, १६, २;

४; ६.

वि/सोक् > लोकि, विलोकयति वउ

३, २२; ३०; विलोक्य महा ६,

७८; तुल ७०: १६; वउ ३, २०;

विलोकयेत् ६१५.

विलोकयते महा २, ५३.

वि-लोक्य अता ५; वउ ३, ५८.

वि/सोच्

वि-सोचन- -ने महा ३, ४०; या

२, ६.

वि-सोम- -मेन त्रिता २, ४; यो २,

१९; ३, १९.

वि-सोहित, ता- -तः सूता १, १२५^b;

नो १, १९^१; -तम् नो २, १९^१;

-ताः लु ८^१.

विचकि' हु २९४: ६७^m.

विचक्षित- /वच् ६.

वि/वच्, विचक्षयसि वृ ३, ९, २६;

व्यवोचः वृ ३, ८, ५.

वि-वक्तुम् छां ४, ४, ५; ५, ३, ५.

वि/वद्, विचक्षामः गौ ४, ५.

व्युद्विरे छां ५, १, ६.

वि-वदत्- -वन्तः गौ ४, ३; ४.

वि-वदमान, ना- -नाः वृ ६, १, ७;

गौ २, १४; -नौ वृ ५, १४, ४; गा

१२.

वि-व्याद्- -द्: १अंन्या २, ८७.

विधादा(द-अ)भाव- -वाद् तांम्

१, १३८.

वि/वध्, विवधीः मना २, ४५९ⁿ.

वि-चर- वि/श् (वधा.) ६.

वि-चर्ण-

वियणं-जीणं-पल्कला(ल-अ)

मिन-परिमद्- -हम् तुअ ९.

वियणं-यद्- -हम् पप ४१८: ३२.

वियणं-यासत्- -न्याः जा ५; या २, १.

वि-चर्धमान- , वि-चर्धित- वि/श् ६.

वि/घल्, विचरगति महा ४, १२९.

वि-चरा- -ताः महा ३, ३४; योशि १,

२७; शि ७, १२५^१.

वैचक्ष्य- -दयम् अक्ष ५, २.

वियश-ता- -ताम् महा ५, १२९.

वि/वस् (निवासे), विवास्यामि छां ४,

४, १.

वि/वस् (वधा.)

वि-वस्वत्- -स्वतः गौ ४, ४; -स्वते

सूता ४, ४; गौ ४, १; -स्वन्तम्

सूता २, २२; -स्वान् गौ ४, १.

वैवस्वत- -०त् क १, १, ७; -वः

मना २, ४५९^१; -तम् इ १३: ४;

-ते गोच ६९: १५.

वैवस्वत-मनु- -नोः सार

२३०: ६:

विवस्वद्-धृति-स्तम्भ-कर्तृ-

-तां यौ ४२२: ४.

व्यु(वि-उ)ष्टि- -ष्टिः छां ३, १३, ४; सौ

१, ३९^१; -ष्टीः २अ ३२: ३; ८^१.

a) ली^० इति अख्या. । b) ल्द^० इति अख्या । c) येत इति निसा. १ यनि. शोषः इ. (तु. अख्या.) ।
d) लापि इति अख्या. । e) 'विनापि' इति निसा । f) 'लीनः' इति निसा, अयान. । g) लीयते इति निसा. ।
h) मा १६, ७ । i) मा १६, ६ । j) 'तः' इति मा १६, ७ । k) 'ता' इति अख्या. । l) लु. प्रयु १ । धा. १ (तु. वैप १
यस्या.) । m) ऋ ९, १६, १९ । n) तैश्वा ३, १५, १ । o) उप. = २वासस्- । p) 'कृ' इति पा. १ यनि. शोषः इ. ।
q) वया. वैप १ यद. । r) तैश्वा ३, ७, १४, ४ । B) = राक्षसि शेष- । ग्या^० इति अख्या. । t) व्य^० इति संदि. (तु. गोमा १, १, १६) ।

वि/वसु(वधा.)>

व्युष्टि-मत्-मान् हां ३, १३, ४.
 वे/वह(वहने), > वाहि
 वि-वाद्य नाप २.
 व्यु(वि-ऊ)ढ, ढा- दम् गी १, २;
 -दाम् गी १, ३.
 वि-चाद- वि/वद् २.
 वि-चासन- -नः महा ६, ६७; अन्ति
 ३७; वरा ४, १६.
 वि-विज्ञव- -वम् श १३.
 वि/विच, विविनक्ति क १, २, २.
 वि-विक्र, क्ता- -क्तः योस् ७, १५^७;
 -क्तम् शि ७, ६; -क्ता सार २६६;
 १६; -क्ते सौ २, २; शि ७, १२८.
 विविक्त-देश- -शाम् त्रिमा २,
 ८९; योशि १, ९०; -शो कै १, ५.
 विविक्तदेश-संसक्त- -क्तः
 नाप ३, ७६.
 विविक्तदेश-सेविन्-
 विविक्तदेशसेविन्-व-
 -वम् गी १३, १०.
 विविक्त-बोध- -घाव सांस् ३,
 ६३.
 विविक्त-रूप- -पः कै २, २.
 विविक्त-सेविन्- -वी गी १८,
 ५२.
 वि-विच्य नाप २; त्रिवि १, ४; पै २, ३.
 वि-वेक- -क्तः गौ ४, ६०; -क्तम्
 छा ६, ९, २; महा ५, ८४; -क्ता
 सांस् ३, ४; ४७; ८४.
 विवेक-क्याति- -तिः योस् २,
 २६; -तेः योस् २, २८; ४, २८.
 विवेक-ज- -जम् योस् ३, ५३;
 ५५.
 विवेक-ज्ञान-वद्धि- -ह्निना वरा
 ३, २४.
 विवेक-तत्त(>:) वरा २, ५२.
 विवेक-दृष्ट- -दृष्टेन महा ६, २१.
 विवेक-निष्ठ- -ङ्गम् योस् ४, २५.

विवेक-बुद्धि- -द्धिः नाप् २, ७.
 विवेक-युक्ति-बुद्धि- -दया
 आबो ११.
 विवेक-रक्षा- -क्षा निर्वा २०, ७:
 ५.
 विवेक-लभ्य- -भ्यम् निर्वा
 २९, ७; १०.
 विवेक-वारि- -रिगा महा ५, ८३.
 विवेक-वैराग्य- -र्यम् १ योत
 १३०.
 विवेक-सिद्धि- -द्धिः सांस् ३, ७५.
 विवेक-हीन- -नाः जावा ६२.
 विवेका(क-आ)ख्य- -ख्यम् द
 १७.
 विवेकिन्- -किनः महा ५, ७९;
 या २, १९; शि ७, १२०; योस्
 २, १५; -किना मु २, २, १५; -की
 योशि १, १८.
 विवेकिता- -ताम् महा ५,
 १४४^{१०}.
 वि-वेचक- -क्ताः सांस् ६, ८.
 वि-विट्टि(विट्टि) - -ट्ट्यै(ट्ट्यै) मना २,
 ६६.
 विचिदिपत्, विविदिषा- /विद्
 (ज्ञाने) द.
 वि-विद्य, धा- -धा धे ६, ८; यु ६७;
 गव २, ४५; -धाः सं २, १, १;
 गर्भ; त्रिमा २, ८८; योचू ११७;
 योशि ३, ७; निह १, १७; १८;
 राधा १, २६; गी १७, २५; १८,
 १४; -धात् त्रिवि ५, ४; -धाति
 सुवा ४; शां १, ७, ५१; योशि ४,
 ६; सार २३७; १५; शि ७, ४०;
 -धाम् शि ७, ७३; -धैः राट्ट ५, ७;
 सार २२४; १९; शि ६, ९१; ९८;
 १८७; गी १३, ४.
 विविध-रत्ना-रूप- -रुणेण सार
 २२९; १०.

विविध-प्रकार(>)रा- -राम् सार
 २२९; ८.
 विविध-मणि-लसत्-कुण्ड-
 (ल>)ल्य- -लाम् व ४२७; २.
 विविध-रस-युक्त- -क्तानि सार
 २२३; ७.
 विविध-लता(ता-अ)न्तर- -रेपु
 सार २२९; ८.
 विविध-लता-प्रावार- -राः सार
 २५३; १०.
 विविध-विविन्न-स्थूल-सूक्ष्मो-
 (रम-उ)कृष्ट-निकृष्टा(ष्ट-अ)-
 नन्त-देह- -हान् त्रिवि ५, ४.
 विविध-विचित्रा(त्र-अ)नन्त-
 चिद्-विलास-विभूति-
 विशेष- -पान् त्रिवि ७, १६.
 विविध-विचित्रा(त्र-अ)नन्त-
 जगद्-भाकार- -रः त्रिवि
 २, १५.
 विविध-विचित्रा(त्र-अ)नन्त-परम-
 तत्त्व-विभूति-समष्टि-
 विशेष- -पान् त्रिवि ७, १.
 विविध-विचित्रा(त्र-अ)नन्त-परम-
 विभूति-समष्टि-विशेष-
 -पान् त्रिवि ६, १०.
 विविध-विचित्रा(त्र-अ)नन्त-
 महा-न्माया-विशेष- -यैः त्रिवि
 ६, १०.
 विविध-विचित्रा(त्र-अ)नन्त-मूला-
 (ल-अ)विषया-विलास- -स्मान्
 त्रिवि ६, १५.
 विविध-विचित्रा(त्र-अ)नन्त-
 शक्ति- -क्तः त्रिवि २, १२.
 विविध-संचार- -रः सार २७०; २०.
 विविधा(प-आ)कार- -रम् श्रवि
 १४; त्रिमा ५, १४.
 विविधा(प-अ)नन्त-महात्माया-
 शक्ति-सुमेधित(>)गा- -गा

a) उप. = २ वामन(>)गा-। b) विमं इत्यपि पाठे। c) क्व इति निगा. इति. नोषः द. (तु. अ. ध्या.)। d) पा. इ
 (तु. नै. ध्या. १०, ६६; पै. नै. ध्या. १०, ५८, १) यति. नोषः द. (तु. मा.; पै. न. मा. लोटि मपु १ इति)। एरिष. अति धा. अर्धस्य।

त्रिवि ४, १३^a.
विविधो(ध-उ)पचार-रैः त्रिवि ५,
१४; ६, १०; १५; १७; १९-२१;
२३; २५; ३७, १५; ८, ५; १७.
विविधो(ध-उ)पाय-यैः त्रिवि ४,
१३.

वि/विश्व, विविशामि मैत्रि २, ६^b.
वि/वृ(आच्छादने), विवृणुते क१, २,
२३; मुं ३, २, ३.
वि^३वि^३भावः मना १, १०;
२संन्या १६: ६; २शितं ३२;
विवाः मना १, १०^३; २संन्या १६:
८^३; वा ७^१?; २शितं ३२^३.
विविधयते गौ ४, ८२.

वि-वृत-वत् १, २, १३; -त्ता:
मुं २, १, ४; छां २, २२, ५^१.
विवृत्त(१त^३)-करण-स्थित-
-तः २प्र ३५: १६.

वि/वृ(बधा.)
वि-वर-रम् ध्या ८३; त्रिमा २,
६९; योचू ५७; योशि ५, ४१;
-रेण मैत्रि ७, १-६.

वि/वृजु>वर्जि, विवर्जयेत् अना
२८; इ १४: १०; २०; शि ७,
१४; ८१; भव ४, १५.

वि/वृत्, विवर्तते तै १, ६, १; खे ६,
२; छाग २५: ९.

वि/वृष्ट, >वर्धि, विवर्धते अघ्या
३७; विवर्धन्ते मैत्रि ६, १५.
विवर्धयेत् अज ५, ७१.

वि-वर्धमान-ने वरा ५, ४७.
वि-वर्धित-तम् शि ७, १०८.

वि-वृद्ध-दम् गौ १४, ११; -द्धे
गौ १४, १२; १३.

वि-वृद्धि-द्विः भव ४, ९.

वि/वृह, विवृहः मना २, ५१^३.

वि-व्येक-, वि-व्येकक-वि/विच् ६.

वि/विश्व, विशते मुं ३, २, ४; गौ १८,
५५; विशति त्रिवि ३, ७; शां १,
७, ९; पै ३, ३; महा २, ६३;
यो १, ५५^१; ३, ३४; सु २, २,
७६; सु ३२; विशन्ति मुं १,
२, १०; वृ ५, १२, १; गौ ४,
५१; मैत्रि ७, १-६; कै १, ३३^१;
मना २, १२, ३^१; महा ६, १६; सु
२९४: ४; गौ ८, ११; ९, २, १;
११, २१; २७; २८; २९^१; विशन्तु
मैत्रि ६, ९; त्रि ३^१; विश मना
२, ६९^१; ७४^३; अविशत् मै
२, ६; विशेत् मैत्रि ६, २८; नाद
१८^३; घ्या ६१; नाप ५, १२;
योचू ३१; त्रिवि ३, ७; योशि १,
१३०; ६, ५३; शि ७, ४८; ९, १.
विवेश मना १, १^३; सुभा १;
व ४३८: १८^३; अरु २, ५^३.
२वि^३-वि वृ ५, १२, १^१.

विशत्-शत्(१र^३) पा ५, ५.

विष्ट-ष्टानि वृ ५, १२, १.

विश्व^१-विशः मना १, १९^३; २, ५५^३;
कौ २, ९^१; व ४६०: २३^३; ४६४:
१९^३; विशम् वृ १, ४, १२;
विशम्-विशम् व ४६०: १९^३.

२विश्व^३-विच् १, ४, १५; विशः

तिशि ३८१: ७; विशाम् छां

८, १४, १.

वैश्य^{१०}-श्यः वृजा ७, ४;
सुपा १९^३; वसू ९; रुजा १, १०;
सार २, ५६: १८; वउ ३, ४८;
भव २, ३४; ६३; -श्यम् राउ ५,
१५; -श्याः रुजा १, ८; ९; भव
२, ६५; गौ ९, ३२; -श्येव वृ
१, ४, १५; -श्यैः सु २९४: १५.

वैश्य-कर्मन्-मं गौ १८, ४४

वैश्य-योनि-निम् छां ५,
१०, ७.

विद-क्षत्र-त्रे अठ्य ५.

विशद, दा^१-दः प्रवि १०४; -दम् कै
१, ६; -दा सार २८४: १४^१.

विशद-चरणा(ण-आ)कु(लि)>-
ली-रव्यः सार २६५: १५.

विशदा(द-आ)शय-याः नाप ५,
१०; महा ४, २०.

वि-शराह-रौ अठ्य ५, १११.

वि-शल्य-रव्यः नी २, १२९^१.

विशशा(ख)>खा^{१०}-खा सार
२२३: २; २६२: ९; २२; २६७:
३; २६८: १०; -खायाम् सार
२५२: २.

२विशा(ख)>खा^{१०}-खायै व
४३८: ५.

विशारद^१-दम् गौ ४, ९३; १००;
-दैः गौरा ३.

वैशार(द>)दी-दीम् पी४२२: २

वैशारथ-थम् गौ ४, ९४.

विशाल, ला^१-लम् त्रिता २, ३८; गौ
९, २१; -ला राधा १, २०^३; १;
९, २१; -ला राधा १, २०^३; १;
९, २१; -ला राधा १, २०^३; १;

विशाल, ला^१-लम् त्रिता २, ३८; गौ
९, २१; -ला राधा १, २०^३; १;

विशाल, ला^१-लम् त्रिता २, ३८; गौ
९, २१; -ला राधा १, २०^३; १;

विशाल, ला^१-लम् त्रिता २, ३८; गौ
९, २१; -ला राधा १, २०^३; १;

विशाल, ला^१-लम् त्रिता २, ३८; गौ
९, २१; -ला राधा १, २०^३; १;

विशाल, ला^१-लम् त्रिता २, ३८; गौ
९, २१; -ला राधा १, २०^३; १;

विशाल, ला^१-लम् त्रिता २, ३८; गौ
९, २१; -ला राधा १, २०^३; १;

विशाल, ला^१-लम् त्रिता २, ३८; गौ
९, २१; -ला राधा १, २०^३; १;

a) 'किल्ले' इति निशा, 'क्तिः सुले' इति अश्या. संदि. । b) 'प्राविशानि' इति मै २, ६; सात. ।
c) व्युपसर्गशास्य = तदपाकरणे । d) मा १३, ३ । e) 'अविशः' इति पा. (तु. बाटी, वे.) यनि. शोधः द्र. । f) 'साः
इति निशा. । g) पा. ? यनि. शोधः द्र. (तु. गोत्रा १, १, २७) । h) तैष्या ३, १५, १ । i) 'विशति' इति अश्या. । j) तैष्या
१०, १०, ३ । k) भावि^३ इति अश्या. । l) तैष्या १०, ६९^१ । m) तैष्या १०, ३७, १ । n) 'आदिशेत् इति आन. ।
o) तैष्या १०, १, १ । p) 'चाक्लपे' इति शौ ७, ९२, १ । q) तैष्या १, २७, ४ । r) डिः प्र. उस्. (पाउ ४, १४२) ।
अर्थः ? । s) पा. ? यनि. शोधः द्र. । t) वैप१ यद. । u) अ १०, १५२, २ । v) 'शोथि' इति अश्या. ? । w) अ १०,
८३, २ । x) अ १०, ८४, ४ । y) = वैश्य-। वैप१ यद. । z) अ १०, ९०, १२ । a') व्यु. ? = स्पष्ट- । b') = सखीविशेष- ।
c') मा १६, १० । d') व्यु. ? = सखीविशेष- । e') व्यु. ? = नक्षत्रविशेष- । f') व्यु. ? = प्रगल्भ- । g') = गोपीविशेष- ।

-रुः महा ५, १४९.
 विशाला(ल-अल)शी- -शी अक्ष
 १, ९; गार ४०७: १९; -रुया
 अक्ष १, ११.
 वि-शि(ख) > ख- -ख: ए ३.
 वि/शिपु. > शेषि, विशिनष्टि सांभ
 ३७; विशिपन्ति ब्रह्म ३, ३, ३७.
 विशिष्यते गी ३, ७; ५, २; ६,
 १; ७, १७; १२, १२.
 वि-शिष्ट, ष्टा- -ष्टस्य सांभ ६, ६३;
 -ष्टा भव ३, १२; -ष्टा: गी १, ७.
 वैशिष्ट्य- -व्यात् सांभ ५,
 ४२; १५.
 वैशिष्ट्य-भूति- -ने:
 सांभ ५, १२४.
 विशिष्ट-देहा(ह-अ)वशिष्ट-
 -ष्ट: नाप ६, १.
 वि-शेष- -प: गौ २, १४; १५; मैत्रि
 ३, ३; योशि १, २३; वरा २,
 ६६; स्व ६१: २०; क १८; सांभ
 ६, २६; योसु १, २२; -पम् मैत्रि
 ६, २४; अक्ष ४, ६५; ब्रह्म ४,
 ३, १६; -प: सांभा ३८; ३९;
 -पात् ब्रह्म ३, १, २३; १, २१;
 -पेण नाप ५, ११; ६, ८; जिति
 ३, १; ५, १३; योशि १, १००;
 यो १, १९; गोज ४५; सि ७,
 ७९; १०२; यै: सांभा ४१.
 वैशेषिका-
 वैशेषिका(क-आ)दि-
 वैशेषिकादि-चत्
 सांभ १, २५.
 वैशेष्य- -व्यात् ब्रह्म १, २,
 ८; २, ४, २२.
 विशेष-कार्य- -येषु सांभ १, १७.
 विशेष-गति- -ति: सांभ ५, ७६.
 विशेष-गुणो(ए-उ)चिति-
 -ति: सांभ ५, ७५.

विशेष-तत्त्व-समता- -ताम्
 योच् ११४.
 विशेष-तस(>) वृजा ५, ४;
 सु १, १०; १योत् ३४; नाप ५,
 ५; ३३; अता १५; राए ५, १६;
 महा २, ३९; शारी १; यो ३,
 २९; रुजा १, १९; गीच ६८: १४;
 सु २२५: १; सि २, २९; ६,
 ४५; ७, ७७; ९३; व ४६२:
 १०.
 विशेष-दर्शिन- -र्शिन: योसु
 ४, २४.
 विशेष-लेश- -श: वरा २, ६६.
 विशेष-वत्- -वत् भव २, १३.
 विशेष-विज्ञान(न-अ)भाव-
 -भाव सता १, ९.
 विशेष-विद्- -विद् ह ६.
 विशेष(प-अ)वृत्ति- -तिभ्याम्
 ब्रह्म २, १, ५.
 विशेष(प-अ)मुद्र- -द्र: ब्रह्म
 ३, ४, ३८.
 विशेष(प-अ)न्त- -न्तम् मैत्रि
 ६, १०.
 विशेष(प-अ)रम्भ- -रम्भ:
 सांभ ३, १.
 विशेष(प-अ)र्थ-
 विशेषार्थ-त्व- -त्वात् योसु
 १, ४९.
 विशेष(प-अ)विशेष-लिङ्गमा-
 धा(प-अ)लिङ्ग- -हामि योसु
 २, १९.
 विशेष(प-अ)विशेष-वियय-
 -याणि सांभा ३४.
 विशेषण- -ण्यत् ब्रह्म १, २, १२.
 विशेषण-भेदप्रपदेश-
 -शाभ्याम् ब्रह्म १, २, २२.
 विशेषणा(रा-आ)नर्थक्य-
 -प्रसक्ति- -के: सांभ ५, ३४.

वि-शेषित- -तम् त्रिवि ६, २३; सि
 ५, १२; ६, १३.
 विशेषित-त्व- -त्वात् ब्रह्म २,
 ४, ५; ३, ४, २३; ४, ३, ८.
 वि/शुभु. > शोधि, विशुष्यति सि ५,
 ५; ३८.
 विशोषयेत् यो २, २८; महा ५,
 १०४.
 शि-शुद्ध, द्वा- -द्वा: योशि ४, २०;
 अक्ष ४, ३०; रह ४०; सि १,
 १५; वज ६, ५१; -द्धम् खे २,
 १५; के १, ६; त्रिवि ४, ७; पाशु
 २, ३६; जाद ६, ४६; गौपु ३२:
 सि ५, २; सांभा ६४; -द्धया जिभा
 २, १४७; गी १८, ५१; -द्धे सुं ३,
 १, ९; १योत् १११; योधि १, ९.
 विशुद्ध-सत्त्व- -त्त्व: सुं ३, १,
 ८; १०; शु ३७.
 विशुद्धा(द-आ)धमन्- -भमा गी
 ५, ७.
 श्वि-शुद्धि- -द्धम् यो ३, १००.
 विशुद्धा(द-आ)स्य- -स्यम्
 योच् ५; योशि १, १७४; ५,
 १००.
 श्वि-शुद्धि- -द्धि: पाशु २, ३६.
 श्वि-शुद्धि- -द्धि: यो ३, ११;
 -द्धी हं ६.
 विशोषित- -ने शां १, ७, ९.
 विशोष्य जिभा २, १६३; २अव
 ३३८: १.
 वि-शुद्ध- -द्ध: गौ ५२: ८; २१; -द्धम्
 शो ५२: ८.
 वि/शु > शिर, विशीर्यन्ते महा ३,
 ४९; सि ७, १२२; श्वशीर्यन्
 ४१ ५, १५, २.
 वि-शीर्य- -र्यै: अक्ष १, ४३; -र्यम्
 कथु १, १; -णीति नाप ३,
 ३०.

अ) अण्यस्मादा वि इति निगा. अण्यस्मापि इति बोध: इ. (यु. अण्णा.) b) ई: इति निगा. c) -तदाव्ययविशेष-। d) इति अण्णा. e) इया इति निगा. गति. f) ई इति अण्णा. गति.

विशीर्ण-वस्त्र-स्त्रम् १संन्या १,
१.
वि-शेष- , वि-शेषण- , वि-शेषित-
वि/शिष्ट द.
वि-शोक,का- -कः छां ८, १, ५; ५,
१; ३; मैत्रि ६, २५; ७, ५; मना
२, १२, ३५; वा २४; -कम् छां
२, १०, ५; मैत्रि ६, २५; ७, ५;
कै १, ६; महा ४, १०४; गोपू
३२; -का योसू १, ३६.
वि-शोषित- , वि-शोष्य वि/शुष्क द
वि/श्रम्, >श्राम्, श्रामि, विश्रमते
ष्या ९३, २-९; विश्रमेत् घ्या
६०; योशि ६, ५२.
विश्राम्यते वि १; ३; ५; ७; ९;
११; १३; १५; १७; १९; वि-
श्राम्यति बी ३५.
विश्राप्राम महा २, ७४.
विश्रामयेत् ति ७, ३२.
वि-श्रम- -मम् महा २, ३५.
वि-श्रमण-
विश्रमणा(ण-ञ्)थं- -थंम् बी
३५.
वि-श्रम्य अन्न २, ९; भव १,
३२.
वि-श्रान्त- -न्तः महा ५, ५९; वरा
४, २९.
विश्रान्त-संदेह- -इम् महा ५,
५९.
वि-श्रान्ति- -न्तिम् पै २, ४९; महा
४, ३९.

विश्रवण^{१०}-
वैश्रवण^१- -गः पाशु १, १; २; वपू
२, ५.
वैश्रवणो(ण-उ)प(मा>)म- -मः
ग १८
वि/श्रु, विश्रुवम् तै १, ४, १; नाप ४,
३८; १५.
वि-श्रुत,ता- -तः मै २, १; मैत्रि २,
१; मैत्रे १, ४, १; -तम् गोउ
३९; -ता अन्न १, ६.
शिवश्व,श्व^{१०}- -श्वः गौ १, १-३; मैत्रि
६, ९; मना २, १५; ७, १५; वृउ
१, ६; तै ६, १०; नाप ८, ८; योचू
७२; रापू ४, ६; पै २, २६;
४०; प्रा २, १; -श्वम् सुं १, १, ५;
२, १, ४; १०; २, ११; ३, २, १;
तै ३, १०, ६; छां ३, १५, १; वृ
६, २, २५; श्वे १, ८; २, १७; ४,
१; ९; ५, ५; मना १, २५; अशि
२, २५; वृपू १, १४; वृजा २, १;
शां २, १; -श्वस्य प्र २, ११; सुं
१, १, १; २, १, ३; श्वे ३, ७; ४,
१४; १६; ५, १३; गौ १, १९;
कै १, १५; मना १, १४; वृ ३,
१२; पै २, २६; पप ४ १९; २३;
वा १७; -श्व ऐ ४, ५५; वृ ६,
४, २७; श्वे ३, २; ४, ४; मैत्रि
५, २; अशि ५, ४; मना १, ३५;
त्रिवि ४, १५; म २, ७५; आपें
९; १५; नापू ४, ११; -श्वः
मना २, १२, १५; सर २, ५५;

वा १७; -श्वान् नाप ४, २८;
-आनि ई १८; वृ ५, १५, १५;
श्वे ५, २; मना १, १५; सुद २;
वृ ६, २, ३; कुं १४; गोपू ३४;
-श्वे छां २, २४, १६; श्वे २, ५५;
४, ८; मना १, १५; वृजा ६,
१२; वृपू २, १६; राउ ५,
२९; ए २; व २३; रशिं
३४; अरु^२; -श्वेन सुता २,
१०; -श्वेभ्यः छां २, २४, १४;
मना २, ६५; -श्वेपाम् छां २,
२४, १.
विश्वकर- -रे गोउ ५६;
विश्व-कृतं- -शारम् वरा ३, १३.
-विश्व-कर्मन्^१-
विश्वकर्म-कृतं- -कृतं मै ४, ४,
१४; मैत्रि ५, १.
शिवश्व-कर्मन्^१- -मां श्वे ४, १७.
विश्व-कारण-भूत- -ताः भव २, १.
विश्व-कृतं- -कृतं वृ ४, ४, १३; श्वे
६, १६; ऋवि १०४; भव २, ४७.
विश्व-क्रीडा-रति- -रतिः मै ४, ४,
१४; मैत्रि ५, १.
विश्व-गुरु- -रुम् शां ३, १.
विश्व-चक्षुस्- -क्षुः मै ५, ६; मैत्रि
६, ६.
विश्व-चर्ष(ण>)णा- -णाः त्रि १;
लि ३ १; ८;
विश्व-चर्षणि- -णिः त्रि १३; व
४६०; ६५.

a) ^{१०} वं इति अच्चा. । b) तैश्चा १०, १०, ३ । c) वैपश् वद. । d) ^{१०} इति निसा. १ यनि. शोघः द.
(तु. तैश्चा ७, ४, १) । e) नाप. मना. चेति कृत्वा वरा. वैपश् यद. । f) तैश्चा १०, १४, १ । g) तैश्चा १०, ६३, १ । h) तु. गपू.
वृ ५७ । i) श्र १०, ८८, १५ । j) तैश्चा १०, १, २ । k) श्र १०, १९०, २ । l) श्र ४, २७, १ । m) श्र १, १६४, ४९ ।
n) 'निहितम्' इति मा ३२, ८ । o) श्र १०, ९०, ३ । p) शौ ७, १२, १ । q) श्र १, १५४, २ । r) तैश्चा १०, १०, १ ।
s) श्र १, ३, १२ । t) 'श्वे इति वे. । u) श्र १, १८९, १ । v) श्र १०, ८९, १ । w) श्र ५, ४, ९ । x) 'विद्यायाः'
इति अच्चा. । y) श्र १०, १३, १ । z) श्र १, १६४, ३९ । a') श्र १०, ११९, १ । b') श्र १, १५७, १ । c') श्र १,
५०, १३ । d') तैश्चा १०, ६७ । e') अच्चा. 'विश्वं करे' इति द्विपदः शोघः द. (तु. निसा., अन्न., अच्चा. संदि.) ।
f') कस. । g') वस. । h') 'निसा. इति पा. (तु. राती., j.c.) यनि. शोघः द. (तु. नापू.) । i') 'णी इति
तान्नि. । j') 'णी इति पा? यनि. शोघः द. (तु. नापू.) । k') 'णी इति अच्चा. संदि. । l') श्रं १०, ८३, ४ ।

विश्व-चार- -राणाम् गह २४.
 विश्व-जगद्-योनि- -निः श २२.
 विश्व-ज(न्य>)न्या- -न्या त्रि १३.
 विश्व-जयिन्- -यी सार २४४: १४.
 विश्व-जित्- -जित् नाप ८, १.
 विश्व-तस(>) छां ३, १३, ७; श्वे ३,
 १४९^३; मना १, ११९^३; २, १३,
 १९^३; महा २, १९^३; च २०: १०९^३;
 वा २०; नी २, १४९^३; १७९^३; छ
 २९३: १८९^३; व ४३७: ८९^३;
 ४३२: ५९^३; ४४४: ९९^३; ४४९:
 १९^३; ४५३: ९९^३.
 विश्वत-कण- -णोः भ २, १३.
 विश्वत-पाणि- -णिः भ २, १३.
 विश्वत-पाद- -दः भ २, १३.
 विश्वतश्-चक्षुस्- -क्षुः श्वे ३,
 ३९^३; मना १, ३९^३; त्रि १०३;
 भ २, १३; त्रि ६, १३९^३; व
 १२९^३; २शिसं २६९^३.
 विश्वत-शिरस्- -नाः भ २, १३.
 विश्वतस्-पा(द>)द्- -पाव
 श्वे ३, ३; मना १, ३; त्रि ६,
 १३; व १२; २शिसं २६.
 विश्वतो-बाहु- -हुः श्वे ३, ३९^३;
 -हुम् भ २, ३.
 विश्वतो-मुख- -स्तः श्वे ३, ३९^३; ४,
 ३९^३; मना १, ३, ३९^३; २, १३,
 २९^३; त्रि ६, १३९^३; प्रा १, ९९^३;
 च २१: ३९^३; मृता १, १२९^३; व
 १२९^३; ए १३; २शिसं २६९^३;
 गी १०, ३३; स्वम् महा १, १९^३;
 १योत २६; योच् १०; ११३;
 योशि ६, १०; त्रिता २, ३६; गी

९, १५; ११, ११.
 विश्वतो-हस्त- -स्तः मना १,
 ३; त्रि ६, १३; व १२; २शिसं
 २६.
 विश्व-ता- -ता नाद २६
 विश्व-तुरीय- -यः पप ४१९: २४.
 विश्व-तैजस- -सः पप ४१९: २४;
 -सौ गौ १, ११.
 विश्व-तैजस-प्राज्ञ- -ज्ञाः पं ३, १.
 विश्व-तैजस-प्राज्ञ-तटस्थ-भेद-
 -द्वैः नाप ६, १.
 विश्व-तैजस-प्राज्ञा(ज्ञ-आ)त्मन्-
 -स्मानः योच् ७२.
 विश्व-तैजस-प्राज्ञे(ज्ञ-ई)धर- -द्वैः
 नाप ६, १.
 विश्व-त्व- -स्वम् पं २, २५.
 विश्व-देव- -द्वैः दे १९^३.
 विश्वदेव- -वम् छां २, २४, ११;
 १३; गार ४०७: ९; -वस्य वृ
 ३, ९, १.
 विश्व-धामन्- -म श्वे ६, ६; पं १९.
 विश्व-धायस्- -यः व ४६०: ९९^३.
 विश्व-पारि(न्>)णी- -णी शां
 १, ४.
 विश्व-धत्- -धत् मना २, ७९^३.
 विश्व-माज- -ज्ञः पप ४१९: २४.
 विश्व-प्राज्ञा(ज्ञ-आ)दि-लक्षण-
 -णम् अत्रि ४३.
 विश्व-भ(द्र>)द्वा- -द्वा गा
 ४०७: १७.
 विश्व-भावन- -नः राउ २, १.
 विश्व-भावित(>)ता- -ता
 विद्या १.

विश्व-भुक्- -भुक् मना २, ७१९^३;
 मै ४, ४, १४; मैत्रि ५, १; ६, ९;
 नाप ८, ७; रा २४; आर्षे ९: १३.
 विश्व-भू- -भूः ए १; ३१^३.
 विश्व-भृत्- -भृत् मै ५, ६; मैत्रि
 ६, ९; १३.
 विश्व-भेद-कलना(न-आ)दि-
 -वर्जित- -तम् वरा ३, ८.
 विश्व-मन्त्र- -न्त्रेण व २१.
 विश्व-मय- -यः व १.
 विश्व-मातृ- -तरम् गु ६६; -ता दे
 ९; त्रि ८; -तुः त्रि १०.
 विश्व-माय- -यः मै ४, ४, १४.
 विश्व-माया-निवृत्ति- -तिः श्वे १,
 १०; नाप ९, ६.
 विश्व-मूर्ति- -र्तियु मना २,
 ६८९^३.
 विश्व-मूर्ति- -र्ते गी ११, ४६.
 विश्व-मोहि(न्>)नी- -नि व
 ४५८: २; नी दे १०.
 विश्व-भर- -र अत्र ५; -रः वृ १,
 ४, ७; कौ ४, १९; सुभा २.
 विश्व-भरो- -री सुभा २.
 विश्व-भर-कुलाय- -ये वृ १, ४,
 ७; कौ ४, १९.
 विश्व-योनि- -निः श्वे ५, ५; त्रि
 १४; गु ६०; ७४; -निम् व
 ४३३: ५; भव ३, ४.
 विश्व-रुचि(>)वी- -ची मुं १,
 २, ४.
 विश्व-रूप-
 विश्वरूप-धर- -रम् राउ ४,
 १७^३; दगा १, १.

- a) श्र १०, ९०, ११। b) श्र ३, ४७, २। c) तैशा १०, ११, १। d) मा १६, १२। e) मा १६, ११।
 f) श्र ९, ८३, १। g) श्र १, ९१, १९। h) श्र १, ७, १०। i) श्र १०, ८१, ३। j) शी १०, ८, २७। k) 'सर्वतो-
 मुखः' इति मा ३२, ४। l) तैशा १०, ११, २। m) 'द्वमूर्तियु इति तैशा १०, ११, १। n) 'एवः इति तैशा १०,
 ११, २। o) 'सर्वतो' इति अष्ट्या। p) 'तोबाहुः इति श्र १०, ८१, ३। q) श्र १०, १२५, १। r) श्र १०, ८३, ६।
 s) 'द्वमूर्त्' इति तैशा १०, ६३, १। t) 'देवीविशेष'। u) तैशा १०, ३८, १। v) पा? 'विश्व-भृति->न्या'
 इति श्लोषः द. (वेत्. उत्र. अन्वयेच्छुः)। w) उत्र. उप. √मा(माने) +नः प्र.। x) वम.। y) तैशा १०, ११, १।
 z) वस.। a') द. गप्. वृ २२९, ६। b') 'श्वयाधारम् इति आन.।

विश्वरूपिन्-पिणम् त्रिभ्रा २,
१५३; महा १,१; च २०: १२.

विश्वरूपिणी-णी योशि
१,११९; दे १७.

२विश्व-रूप,पा^१- -०प गी ११,
१६; -प: प्र १,७; ते १,४,१; छां
५,१३,१; १८,२; खे १,९; ५,७;
मैत्रि ७,७; मना २, ८९^०; अशि
३,२; नाप ४,३८९^०; ९,८; शा
२०; च २१: १६; बा २४; पा
५,६; वट्ट ३१५:१; शुभो ४२१:
५; पो १९; भव २,३; २३; -पम्
प्र १,८; छां ५,१३,१; वृ २,२,
३३; खे ६,५; मै ५,८; मैत्रि ६,
८; अक्षि १; भ २, ३; जाद ९,
२; प्रा २, १^०; गोड ३२^०; चा
१५; पा ९, ७; सृ १५; १९;
-पस्य त्रिभ्रा २, १५९; -पा मना
२, ४३९^०; गार ४०७: २०९^०;
-९^०पा: दे ५; सर २,८; पाय मैत्रि
७,७; मना २, २३९^०; चा २२;
गोपू ३४; पा ५,५; सृ ४; रशिसं
३०९^०; व ४६४: १२९^०.

वैश्वरूप-पस्य तांका १५.

विश्वरूप-चक्र^१- -क्रम् चक ८

विश्वरूप-त्व- -त्वम् त्रि १५;

-त्वात् अव्य २.

विश्वरूपै(प-ए)क-पाश- -शम्

खे १,४; नाप ९, ३.

३ विश्व-रूप^१- -प: -पात् वृ २,६,

३; ४,६,३.

विश्व(ध-श्र)र्षिं- -र्षीन् पा ९,४.

विश्व-विचेष्टित- -नम् पाशु २, ४.

विश्व-विद्- -वित् खे ६, १६; भव
२, ४७.

विश्व-विवर्जित- -त: वरा २, ६३^१.

विश्व-विश्व- -श्व: पप ४१९:२४.

विश्व-वीचि- -चप: कुं १४.

विश्व-वेदस- -दसम् आर्षे ९:१८;

९^०व ४३२: १५; ४४४: १९;

४५०:३; ४५३:१३; -दसे मना

२, ६९^०; -९^०दा: प्र मुं मां शां;

मना १,९; वृजा अशि अ वृपू नाप

सी श त्रिवि रार रापू शां पप

अक्ष सू १आ पाशु पय त्रिता दे

भा भ ग मवा गोपू कृ ह दत्ता गह

अवि पहं शां; सि दां; रा

४२३: १; पित्र शां.

विश्व-व्यापक-रूप-

विश्वव्यापकरूपि(न>)णी-

-णीम् गो २.

विश्व-न्यापिन्- -पी रापू ५,१९.

विश्व-नांभू- -भुवम् मना २, १३,

१९^०; २९^०; महा १, १९^०.

विश्व-नास्तृ- -स्ता वा २४.

विश्व-संस्थित- -त: गोड ४५.

विश्व-संभव- -वम् च २०: १९^०.

विश्व-सृज्- -सृक् मैत्रि ६,८; ७,७;

-सृज: वृपू १, १४^०; ९^०; -सृद्

मै ५,८.

विश्व-स्थित्य(ति-श्र)न्त-हेतु-

-तवे गोपू ३४.

विश्व-हीन-

विश्वहीन-क- -क: ते ४, ४३.

विश्व-हेतु- -तवे सू १९.

विश्व(ध-श्र)कार- -रेण योशि ४, २.

विश्व(ध-श्र)क्ष- -क्षम् मना २,
१३, १९^०.

विश्व(ध-श्र)ख्य- -ख्य: मै २,
५^०; मैत्रि २, ५.

विश्व(ध-श्र)ची- -ची मना
२, ४१९^०.

विश्व(ध-श्र)तीत- -तम् शु १,
१८^०.

विश्व(ध-श्र)स्मन्- -स्मा मै ४,
४, १४; ५, ६; मैत्रि ५, १; ६,

६; ते ४, ४३; वपू २, ३; स्मानम्

मना २, १३, १९^०; भ २, ३.

विश्व(ध-श्र)हृद्- -हृदि ते १, १^०.

विश्व(ध-श्र)दि- -दीनाम् नाप

८, ६.

विश्व(ध-श्र)धार- -र: वज ३;

६०.

विश्व(ध-श्र)धिक- -क: मना २,

१२, ३१^०; त्रिवि १०४; भ २, ६;

७; -कम् सिषि ३८०: ५.

विश्व(ध-श्र)धिप,पा- -प: खे ३,

४९^०; ४, १२९^०; १५; पाशु ५६;

५८.

विश्व(ध-श्र)धिष्ठान- -नम् ते १,

२६.

वि(ध>)श्वानर^१-

वैश्वानर^१- -र: क १, १, ७; प्र

१, ७; मां ३; ९; छां ५, १२-१७,

१; वृ १, १, १; ५, ९, १; मै २,

८^०; मैत्रि २, ६^०; ६, ९; वृपू ४,

४; सृ १, ६; २, ५; सुबा २; त्रिवि

१०३; नाप ८, ८; त्रिवि ३, ७; राड

३, १; प्रा २, १; गु २२; वट १, ६;

a) वस. । b) तैआ १०, ६, १ । c) तैआ ७, ४, १ । d) ०प: इति निसा. संटि., ध्यान. । e) चित्स्वरू^० इति ध्यान. । f) तैआ १०, ४२, १ । g) =शक्तिविशेष- । h) श्र ८, १००, ११ । i) तैआ १०, १२, १ । j) श्वस्वरू^० इति निसा. । k) =गोत्रप्रवर्तक-श्रविशेष- । l) इदमपि^० इति निसा. संटि., ध्याव्या. । m) श्र १, १२, १ । n) तैआ १०, ५, १ । o) श्र १, ८९, ६ । p) तैआ १०, ११, १ । q) तैआ १०, ११, २ । r) श्वसंभु^० इति तैआ १०, ११, १ । s) पा.३ यनि. शोध: द. (तु. नाड.) । t) तैआ १०, ३९, १ । u) इन्द्रा^० इत्यपि निसा. पाभे. । v) श्वातीतं ह^० इति ध्यान., J.C. । w) 'विश्व(ध-श्र)धिप: (तु. गपू. ४४२६m)' इति निसा.३ यनि. शोध: द. (तु. तैआ १०, १०, ३; J.C.) । x) ०धिक: इति तैआ १०, १०, ३; ध्यान. संटि., J.C. । y) पूष. दीर्घ: (पा ६, ३, १२९) । z) वप्रा. द. ।

५, ५१; अमू १, २, २४; गो १५,
१४; -रम् छां ५, ११, २; ४; ६;
१२-१७, २; १८, ११; आपँ ९;
१६; -रस्य छां ५, १८, २; -राय
मना १, ७५^०; करु १; वं ४६३:
७५^०; -रे छां ५, २४, ४.
वैश्वानरी- रीम् कथु
१, १.

वैश्वानरा(र-आत्मक)-

रिमका-काम् विद्या १.

वैश्वानरे(र-इ)ष्टि^१ -ष्टिम्
१संन्या १, १०.

वि(ध>)श्वा-मित्र^१ -त्रः वृ २,
२, ४; मना २, ३५५^०; रार २,
१०; २१; ६३; ७०; आपँ ७; २;
-त्रेण अच् १५.

वैश्वामित्र- -त्रम् गार
४०७; १५.

विश्वामित्र-जमदग्नि- -ग्नी वृ
२, २, ४.

विश्वामित्र-अ)मृत- -तः मैत्रि ६, ९.

विश्वामित्र-अ)मृत्यु- -स्तो अच्
१५६.

विश्वामित्र-अ)युस- -युः मना २,
३५५^०.

√विश्वामित्र-अ)पिस- -पिः मना
२, १३, २; महा १, १; च २१: ३.

वि(ध>)श्वा-वसु^१ -स्तो वृ ६,
४, १९.

विश्वामित्र-अ)ह-

विश्वामित्र-अ)ह-संततो(त-उ)द(ध>)-

या- -ना(श्याम्) त्रिता २, २७.

विश्वामित्र-अ)ह-ना- -नाः योशि ६, ३२.

विश्वामित्र-अ)ह-श्वर- -श्वर मै ४, ४,
१४; मैत्रि ५, १; गो ११, १६;

-रः म २, १३; गोउ २३; श्या ६;

-रम् महा १, १; म २, २०; २१;

च २०: १३; -राय गोपू ३४.

विश्वामित्र-अ)मिध- -धम्
म २, १९.

विश्वामित्र-अ)मिध- -धम् श्वे १, ११;
नाप ९, १०.

विश्वामित्र-अ)मिध- -धम् श्वे १, ११;
नाप ९, १०.

विश्वामित्र-अ)मिध- -धम् श्वे १, ११;
नाप ९, १०.

विश्वामित्र-अ)मिध- -धम् श्वे १, ११;
नाप ९, १०.

विश्वामित्र-अ)मिध- -धम् श्वे १, ११;
नाप ९, १०.

विश्वामित्र-अ)मिध- -धम् श्वे १, ११;
नाप ९, १०.

विश्वामित्र-अ)मिध- -धम् श्वे १, ११;
नाप ९, १०.

विश्वामित्र-अ)मिध- -धम् श्वे १, ११;
नाप ९, १०.

विश्वामित्र-अ)मिध- -धम् श्वे १, ११;
नाप ९, १०.

विश्वामित्र-अ)मिध- -धम् श्वे १, ११;
नाप ९, १०.

विश्वामित्र-अ)मिध- -धम् श्वे १, ११;
नाप ९, १०.

विश्वामित्र-अ)मिध- -धम् श्वे १, ११;
नाप ९, १०.

विश्वामित्र-अ)मिध- -धम् श्वे १, ११;
नाप ९, १०.

विश्वामित्र-अ)मिध- -धम् श्वे १, ११;
नाप ९, १०.

विश्वामित्र-अ)मिध- -धम् श्वे १, ११;
नाप ९, १०.

विश्वामित्र-अ)मिध- -धम् श्वे १, ११;
नाप ९, १०.

विश्वामित्र-अ)मिध- -धम् श्वे १, ११;
नाप ९, १०.

मैत्रि ३, ४.

विण्-मूत्र-पूय- -ये नाप ४, २६.

विण्-मूत्र-लेप-गन्धा(न्य-आ)-

दि-मोचन- -नम् मैत्रे २, ८.

विण्-मूत्र-वाल-पित्त-कफ-मजा-

मेदो-वसा- -स्ताभिः मैत्रे १, ३.

विण्-मूत्र-वाल-पित्त-कफ-

संचात- -ते मै १, २.

विण्-मूत्र-वेग-

विण्मूत्रवेगिन्- -गिना वरा

५, ९.

विण्-मूत्रा(त्र-आ)दि-विस-

लेन- -नम् शां १, ४; जाद ४,

३१.

१ विप^१ -पम् वृजा ८, २; वृप

५, १४; आपो १७; योचु ६८;

मुद्र ३; शां १, ७, ४३; महा ३,

५४; ५५; ५, १११; योशि ५,

३३; १संन्या २, ८८; गह ५; ६^५;

७; ९; १०; १२^५; २४^५;

वरा २, ३७; लां २१६: ३; वर

५, ८; भव १, १४; गो १८, ३७;

३८; पाणाम् गह ९; २४; पाणि

शां १, ३, १२; ७, ५१; यो १, ३१;

-पाय आपो २७; -येण महा ५,

१११.

विप-गल-हस्त- -स्ताभ्याम्

व ४५२: १४.

विप-प्र- -प्र अच् ५.

विप-जवर-निप्र- -प्र अच् ५.

विप-जवाला-हस्त- -स्ताभ्याम्

व ४५४: ५.

विप-गुण्ड- -गुण्डानाम् गह २४.

विप-गुण्ड-दंष्ट- -दंष्टानाम् गह

२४.

विप-दंष्ट- -दंष्टानाम् गह २४.

वि√श्वस्-विश्वसेत् १संन्या २, ९०.
विश्वसितु महा ३, ३२.

वि-श्वात्- -सः शां १, २; अञ २,
२; जाद २, ६; -सम् मैत्रे २,

१६; महा २, १३; ४, ३०.

विश्वात्-ता- -ता वरा ३, २१.

√विप्(बधा)
विप्^१-

विट्-वराह- -हम् रुजा २, १७.
विण्-मूत्र-करण- -णाय नाप

३, ६५.
विण्-मूत्र-पित्त-कफ-मजा-मे-

दो-वसा- -स्ताभिः मै ३, ४^०;

a) ०श्व इति निसा. । b) तैत्ति १०, १, ७ । c) ०रीम् इ ० इति अख्या. । d) पूष दीर्घः (पा ६, ३, ११-०) ।
e) तैत्ति १०, ३५ । f) वस. । g) ०र्योर्म् इति अख्या. संति. । h) तैत्ति १०, ११, २ । i) पूष दीर्घः (पा ६,
३, १२८) । j) पाः यनि. क्षीधः इ. । k) =नादीविरोध- । l) =रु- इति अख्या. । m) ०रा इति तान्त्रि. ।
n) ०दारा इति अख्या. । o) वृ. गण. ४३९, ५५ । p) ०प्रवाह- संति. । q) =गल- ।

विप-दन्त-न्तानाम् गह २४.

विप-द्वि(न्)णी-णी गह ९; १२-२४.

विप-दोष-पै: आबो २७.

विप-नाशि(न्)णी-णी गह ९; १२-२४.

विप-पुच्छ-च्छानाम् गह २४.

विप-भाग-ग: शां १, ४.

विप-मिश्रित-तम् भव ४, १३.

विप-रूप-

विपरूपि(न्)णी-णी

गह ९; २४.

विप-रोग-विनाशन^०-नम् जाद ३, ७.

विप-विम-नाशन^०-०न अक्ष ५.

विप-वृक्ष-ज-जै: वपू २, ५.

विप-सोपि(न्)णी-णी गह ९; १२-२४.

विप-संसार-द्विपित-तम् अक्ष ५, ३.

विप-हारि(न्)णी-णी गह ९; १२-२४.

विपा(प-अ)ङ्ग-ङ्गानाम् गह २४.

२विप^०-प: रापू ४, ६१.

वि/√(स)द्, > पीद्

वि-पाद्-द: मै ३, ५; मैत्रि ३, ५; १शोत १३; नाप ३, ४०;

योशि १, ११; ३म् गी १८, ३५; दाय महा ६, ६०.

वि-पादिन्-द्री नाप ५, ६; गी १८, २८.

वि-पीद्व-दन् गी १, २७; दन्तम् गी २, १; १००.

वि-प(<स)म-म: महा ३, २०;

-मम् यो १, ६०^१; -माणि महा ४, ३०; -मे गी २, २.

वैपम्य-

वैपम्य-नैपृण्य-ण्ये प्रम् २, १, ३४.

विपम-उवर-रम् व ४३३: २१.

विपम-र्य-र्यम् मै ४, ५१^१; मैत्रि ५, २.

विपमा(म-आ)युध-धम् १संन्या २, ९१.

विपमा(म-आ)सन-दोप-पात् यो १, ५७^१.

विपय^१-य: गौ ४, ८०; ते १, १९^१;

अक्ष ४, ३; ५, ८६; वरा ३, २७; गोड १४^१; सु २, २, ७४; सांस् १, १०८; सांका १११; यम् योशि ३, २४; नाद ४२; सुद्र २; पाशु २, १०; चू ६; सांका ३५; -या: गौ २, २१; महा ३, ५५; शारी १^१;

भव २, १९; विद्र १, १५; १कौल २: ४; २कौल २; गी २, ५१;

-बाणाम् नाप ३, ६८; -यात् यो ३, ३; -यान् क १, ३, ४; मै २, ९;

मैत्रि २, ६; ६, ३१; ससा १, ७; नाप ३, २६; ४, १; १अव ६; पै ४, २; भव २, ११; गी २, ६२;

६४; ४, २६; १५, ९; १८, ५१; -वे त्रिना २, २४; योशि ३, २४;

पाशु २, ८; -यम्य: त्रिना २, ११५; मै १, १, ७; -वेपु ते १, ३४; योचू १२०; शां १, ८; यो १, ७३^१; जाद ७, १; विद्र ५, ३; जै: सार २३१: ८.

विपय-गोचर-रम् मैत्रे १, ४, ७;

-रे मै ४, ४, ५; मैत्रि ६, ३४; शा २; भय ३, १५.

विपय-ग्रहण-बुद्धि-द्वि: नात्र ६, १^१.

विपय-चापल-लम् महा २, १३.

विपय-रयाग-ग: महा ४, ७५;

वरा २, ७६.

विपय-दृष्ट-ष्टम् गौ ४, २१^१; मैत्रि ४, २.

विपय-प्रवा(ल)ला-ला: गौ १५; २.

विपय-भोग-गान् त्रिवि ५, ४.

विपय-व(त)ती-ती योसू १, ३५.

विपय-वर्जित-ते वरा ४, ३१.

विपय-वासना-ना: सु २, २, ६९.

विपयवासना-विनाश-ग: अक्ष १, ५४.

विपय-वैतृण्य-ण्यम् नाप ५, १०.

विपय-वैपम्य-म्यम् महा ३, ५४.

विपय-रयासि-वर्जित-तम् त्रिवि १६.

विपय-र्यावसंत-पूर्वक-कम्^० मं १, १, ८.

विपय-संकर-रूप-रूप: नि ३३.

विपया(य-आ)काङ्क्षिन्-ङ्क्षि यो ३, ३.

विपया(य-आ)रूप-रूपम् सांका ३३.

विपया(य-आ)दि-दीन् वरा २, ३७; द्रौ सार २७८: २३.

विपया(य-आ)नन्द-वाग्छा-छा आबो १५.

विपया(य-आ)न्तर-रे सार २९०: २२.

a) °पणी इति श्रद्धा संटि. । b) लप. कर्तारि क्त. । c) °पणी इति पा. १ यनि. शोष: द. (तु. श्रद्धां. संटि.) । d) =मकार-भोजार- । e) 'सीद्मानम्' इति SCHR. पाठे. [वित्तु. वे. (NIA २, २३१)] । f) °यम् इति श्रद्धा. । g) °पय^० इति निसा. १ यनि. शोष: द. (तु. नात्र.) । h) °या इति श्रद्धा. । i) व्यु. ? । j) निसा. पा. ? अवि^० इति शोष: द. (तु. श्रद्धा.) । k) °यी इति निसा., आन. । l) °मेपु इति श्रद्धा. । m) °हणा^० इति श्रद्धा. । n) विपद् इति निसा. १ यनि. शोष: द. (तु. नात्र.) । o) अवि^० इति श्रद्धा. । p) वा. क्रिवि. द. ।

विषया(य-आ)शा- -शा भावो १६.
 विषया(य-आ)शा-दशो(सा-उ)-
 मिश्रत- -तः अक्ष ५, १६.
 विषया(य-आ)शीविषा(य-आ)-
 सह-परिजर्जर-चेतस-
 -तसाम् महा ३, १०.
 विषया(य-आ)सक्त- -क्तः प्रवि ५०;
 -कम् प्रवि २; मै ४, ४, ११; त्रिता
 ५, ३; शा १; अवि २.
 विषया(य-आ)सह-
 विषयासक्ति- -क्ति मैत्रि ६,
 ३४; मव ३, १४.
 विषयिन्- -यी त्रवि ५, ५०.
 विषये(य-इ)न्द्रिय-निग्रह- -हः सं
 १, १, ३.
 विषये(य-इ)न्द्रिय-संयोग- -भाव
 गी १८, ३८.
 विषयो(य-उ)धान-चारिन्- -रिणः
 नाद ४४.
 विषयो(य-उ)परम- -नाथ सांका
 ५०.
 वि/व(<घ)ह
 वि-पासहि- -हिः वृ २, १, ७; कौ
 ४, ८.
 विषाण¹⁰-
 विषाण-वर्ष गौ ४, १६.
 वि-पाद्-, वि-यादिन्-, वि-पीदह-
 वि/पद् द.
 विष्णु¹⁰
 विष्णु-ना¹⁰- -नम् जाद ४, ४४; ४५;
 -वस्व रि ६, ११५; चे त्रवि ५, ५;
 हजा २, १८.
 विष्णुवा(व-अ)वन-काल- -लेषु
 जाद ४, ५५.
 विष्णु(वृ/ष)ष्
 विष्णु(गु-अ)ष्- -ष्क वा

११; १७; -ष्क क २, ३, १६;
 हां ८, ६, ६; त्रिवि ४, १९;
 योशि ६, ४; वा १३; २५; -व्यञ्जः
 वृ १, ३, ७.
 विपूची- -ची क १, २,
 ४; मैत्रि ७, ९.
 विष्वक्-से(ग)>न¹⁰- -नम्
 त्रिवि ६, २०; -नाय त्रिवि ७, ४२.
 विष्वक्सेन-परिपालित-
 -तः त्रिवि ५, १२; ७, १.
 विष्वक्सेन-वैकुण्ठ-पुर-
 -रम् त्रिवि ६, १९.
 विष्ट- /विश् द.
 वि-ष्टण¹⁰-
 विष्टये(प-इ)शा>गी- -गी अक्ष
 १, ५.
 वि/ष्ट(<त)म्
 वि-ष्टम् गौ १०, ४२.
 वि/ष्टा(<स्य)
 वि-ष्टा- -ऽष्टाः मना १, १०;
 ३ संन्या १६; ७; २ त्रिासं ३२.
 वि-ष्टित- -तम् गौ १३, १७.
 रचिष्टा¹⁰-
 /विष्टि
 विष्टित- -तः नापू ५, २८.
 विष्णु¹⁰- -ष्णवे मैत्रि ६, ३५; मना
 २, ७५; वृजा ४, २९; स्वकः
 त्रिवि ७, २०; ३७; ४१; ४१;
 ४८; वृ ७; नापू ३, ७; १२; पा २,
 १, ५, ५; ९, ४; वृ ४५ ७; ५; ४६ ५;
 ४९; -ग्य वृ ४५, ३; -ग्यः सौर्वा¹⁰;
 १, १२, १९; वृ ६, ४, २ १९; मै
 ४, ४, १२; ४, ५; ५, ५; ८; मैत्रि
 ४, ५; ५, १२; ६, ५; ८; १६; ७,
 ५; व २; अशि २, २; अ १-३;

कै १, ८९; ना २; ४; मना १,
 ६९; २, १९; ३, ५९; ६, ८९; वृजा
 ४, २२; ७, ६; ७; वृ २, २; १३;
 ४, १५, २; वृ ३, ३; ४, ४; ५,
 १; २; ९, १०; मुवा¹⁰; नि¹⁰; २०;
 सु २, ५; वे ७, १६; ५, ५१; ८०;
 प्या १०; २१; त्रिवि ५; ४१; ७१;
 १०४; १ चोत २; १३०; २ चोत
 १, २; आवा १; विवा २, १५२;
 सौ ३; योचू ७२; ७५; व ११;
 श २२; २४; २५; स्वकः ९;
 त्रिवि १, ११; ७, ३९; राठ ४,
 ५; वा २८; ३, ५९; शां ३, १; ४
 १, १५; २, १७; महा ३, ५२;
 योशि १, १७६; ५, १३; ५६;
 पय ४२०; ६; अन्व ५; सू ९;
 अग्या २०; पाशु १, १०; ११;
 पत्र २; वृ ५; ११; १२; १५;
 १६; १६; म २, २५; २९; वजा
 २, १९; व ६; ता १, २; प्रा १,
 ६९; कृ १६; ए ३; २२; वरा २,
 ८; जाला २६; व २; आन ९; १३
 ३१; ८; सूता १, १७; स्वकः ५;
 क ६३; १२; गौच ६७; ८; नापू
 ३, २; तुलु ७ १; २; नापू ३, ३९;
 ४९; ४, ५९; ११९; पा १, १५,
 ५; ९, ४; राधा २, ५; लि ३१०;
 १६; वृ ३ ३ ३; ४; कालि ७० ३;
 ८; गार ४० ८; व ४ ४ ३ ३;
 १०; १६; ४ ४ ८; १७; ४ ४ ९;
 १९; ४ ५ ३; १९; ४ ६ ३; ४ ९;
 विषा वा¹⁰; अद्वैता ५; वृ १,
 २; २; ३; व ३, १; २; ३, १८;
 ४१; ५२; ४, १७; २६; मव २,
 ४२; ५, १५; गौ १०, २१;

a) पक्तिः इति शब्दाः । b) =वृत्त- । वैश्वं यद । c) अन्व. वैश्वं यद । d) =विष्णु-वृत्त- । वैश्वं यद । e) श्र १०, १४, ४ । f) =विष्णु- । g) वैश्वं यद । h) मा १३, ३ । i) व्युत्पं =उत्पि- । j) तैत्तिरीया १०, ७५ । k) तैत्तिरीया २, १२, १ । l) श्र १, ९, ९ । m) श्र १०, १८, १ । n) तैत्तिरीया १०, ११, २ । o) तैत्तिरीया १०, ११, १ । p) तैत्तिरीया १०, १, १६ । q) तैत्तिरीया १०, १५, १ । r) तैत्तिरीया १०, ११, १ । s) श्र १, २२, १८ । t) श्र १, २२, १७ । u) श्र १, २२, १६ । v) श्र ७, १०, १ । w) श्र १, १५४, १ ।

-ष्णुना श १६; नार ९; सिनि
 ३८२:१८; -ष्णुम् अना २; वृष्
 १,१५; वृष्ट ३, ९; १०; ६, १;
 सुभा ९; आबो १; नाप ५, ३८;
 श ५; ६; ११-१३; त्रिवि ४, १३;
 रार २, ९२; राठ ४, १^b; शां १,
 ७, ३८^a; महा ३, ५७; १अव
 २५; दे २; जाद ८, ५; शा ११;
 दत्ता १, १; गु ७२; भव १, ५६;
 २, १४; ६२; -ष्णो वृजा ७, ६;
 पा २, ४; व ४४३: ११; गी ११,
 २४; ३०; -ष्णो: क १, ३, ९;
 मैत्रि ६, १३; २६; आरु ५^१: ९;
 मना २, २९^०; वृजा ८, ६^१: ९;
 वृष् ५, २१^१: ९; सुभा ६^१: ९; नाद
 ४७; ते १, ५; ९^०; ध्या २५; न
 १; नाप ९, २०; सी ३२; मं ५,
 १, ५; श ३; १७; २१; स्क ८;
 १४^१; १५^१: त्रिवि ३, ५; ८,
 १७; रार २, १; राठ ५, २९^१: ९;
 वा ७^१: सुद्र १, २^१; ३; शां १,
 ७, ३७; पं ४, २३^१: १; योशि ६,
 २१^१: त्रिता ४, १८^१: १९; २०;
 २२; अ २, ५; ता ३, ९^१: ९; गोपू
 २१; २७; ३१; वरा ४, ४१;
 ५, ७६^१: वा २७; सु १, १, ९;
 २, २, ७०^१: १ प्र ३०: ३; ऊ
 ६३: १०^१: ६४: १०^१: गोच
 ६६: ६^१: का ८; नार ४^१: ७;
 नापू ४, ४^१: पा २, २; सं शां^१:
 सार २२६: १८; सु २९४: ३;
 १२^१: सिशि ३८०: ५; व ४६१:
 १८^१: भव २, १२^१: ५९; ३,
 ५; ३२; ४, १२; ५, २३; -ष्णो
 सुभा ५; नापू ५, ३०.
 वैष्णव-व: सौ २, १०; तुल

७०: ८; सार २२७: ८; पी
 ४२२: १८; १कौल ६; २; २कौल
 ७; अद्रैमा ५; भव ५, २३; -वम्
 अशि ५, ११; नाद १५; त्रिवि
 १, ११; अक्ष ३; त्रिता १, १; ४९;
 ५७; कृ १; गोपू २९; शा १०;
 २ प्र ३४: २२; ऊ ६४: ३; सु
 २९४: १०; गार ४०७: ८;
 १२; भव ५, १६^१; कथु २, ३;
 -वा: अल १२; सार २३५: १४;
 २४९: २०; २७३: १८; भव
 ५, २२; -वान् त्रिता ४, १५; सं
 १७; -वानाम् सु २९५: १; -वे
 रार ४, ७; -वेन गर्भं ४; -वेपु राठ
 ५, ४; सार २३५: १८.
 वैष्णवी'- -वि व
 ४३१: १८; ४३६: २२; ४५८:
 ११; -वी नाद १०; त्रिमा २,
 ६९; योचू ८६; त्रिवि ५, २; ६,
 १६; शां १, ४; ७, १४; १५; त्रिता
 १, ७४; कृ ५; गार ४०६: १६;
 पी ४२२: १०; व ४५८: ७;
 सुसु १३; तारा ८४: ४; -वीम्
 मना २, २९^१: नाद ३१; त्रिवि ६,
 १०; त्रिता १, ८०; दे ६; शा
 २६; ३०; ३३; ३४^१: सु १, १,
 ५२^१: तुल ७०: ५; व ४६१:
 १९^१: यो ६; -यै वषं ३१२: ६.
 वैष्णवी-शक्ति- -क्ति:
 आथ ३९४: ५.
 वैष्णव-कला-सु(क)> क्ला-
 -क्ताम् यो ६.
 वैष्णव-गायत्री- -ग्या वा
 १०; १२; ३७; गोच ६६: १३.
 वैष्णव-धर्म-सिद्धान्त-
 -न्ता: भव ५, २२.

वैष्णव-सश्रव- -वा: सु
 २२४: ११.
 वैष्णव-सिद्धान्त- -न्तान्
 भव ५, १७.
 विष्णु-क्रान्त,न्ता- -न्तम् शा ४;
 -०^१: न्ते मना १, ८; ऊ ६३: ७;
 व ४६४: ९.
 विष्णु-क्रीडा- -डा: शा ११.
 विष्णु-क्षेत्र- -ग्रम् का ४; नार ३.
 विष्णु-गायत्री- -ग्या वा ८; ऊ ६३:
 ११; गोच-६६: ७; १२.
 विष्णु-ग्रन्थि- -ग्रन्थि: त्रिवि ७०;
 -न्थिम् योशि १, ८७; यो १, ६८
 ८५; वरा ५, ६५^१; -न्थे: सौ २, ७.
 विष्णु-चन्दन- -नम् वा ३; गोच
 ६५: ३; ६६: १.
 विष्णु-स्व- -स्वात् वृष्ट ७, ९.
 विष्णु-वृष- -वृष व ४३५: ९.
 विष्णु-देव- -वस्य भव ४, ५.
 विष्णु-देवता-
 विष्णुदेव(ल)>)त्या- -त्या अशि-
 ५, १०.
 विष्णु-देह-समुद्भव,वा- -व वा
 ६; गोच ६६: ४; -वे ऊ ६३:
 १३.
 विष्णु-दैव(ल)>)त्या- -त्या अ १;
 २ प्र ३४: २१^१; गार ४०६: २३.
 विष्णु-नृसिंह-पदक्षर-मन्त्र- -न्त्री
 त्रिवि ७, ३०.
 विष्णु-पत्नी- -पत्नी गी १, ३; -पत्नीम्
 ऊ ६३: ५; -पत्न्य: गोच ६७:
 ६; ७; -पत्न्यै नापू ४, ४^१; व
 ४६२: ८.
 विष्णु-पद- -पदम् राठ ५, २८.
 विष्णु-प(ल)>)द्या- -द्या: वषं ३१२:
 १९.

a) वृ. गप, वृद्धदृष्ट। b) महावि इति आन। c) ऋ १, २२, २०; २१। d) तैश्चा १०, १, १६।
 e) 'निष्ठा' इति आन। f) ऋ १, २२, २०। g) ऋ १, २२, २१। h) ऋ १, १५४, १। i) देवीविशेष-, विद्याविशेष-,
 मात्राविशेष- प्रयु.। j) वाध २, ९। k) तैश्चा १०, १, ८। l) 'दे' इति गोमा १, २, २५। m) 'एली' इति पा. ३
 यनि. सोध: द्र.।

विष्णु-पूजित-भूति-
 विष्णुपूजितभूति-स्व - स्वत्
 गोच ६८: ८.
 विष्णु-पूत- -तः वृक्षा ८, १; वृषू ५,
 १२; रात ५, ४; पै ४, २३.
 विष्णु-पूर्वक- -काः कर २९
 विष्णु-प्रिय(य>)या- -यायै तुल ७०:
 १०; ११.
 विष्णु-प्रीति-क(र>)री- -री तुल
 ७१: १६.
 विष्णु-प्रहस-महेश्वर- -राः रुह १४.
 विष्णु-ब्रह्मे(ब्र-ई)श-देवता- -हाः
 योशि ६, ७०.
 विष्णु-भक्त- -क्तः अता १४; द्व ४;
 -काः रा १, २; ५; ७; सार २३५:
 १४.
 विष्णु-भक्ति- -त्तया त्रिवि ८, १२.
 विष्णु-भजन-रत- -ताः सार
 २३५: १२.
 विष्णु-मण्डल- -लम् व ४४३: १०;
 ११.
 विष्णु-मय- -यः रुक ९; गोच ६८:
 १०.
 विष्णु-महेश्वरा(र-आ)ह्य- -ह्यैः
 त्रिवि ६, ७.
 विष्णु-मुख- -खाः मना १, १०५.
 विष्णु-नति- -तयः शा ११.
 विष्णु-रुद्र-
 विष्णुरुद्रा(द-आ)दि- -दयः
 राधा ३, १६.
 विष्णुरुद्रादि-पूजन- -नम्
 शा १, २.
 १ विष्णु-रूप-
 विष्णुरूपिन्- -पी दगा १, ६.
 २ विष्णु-रूप- -यः स ३७९: ५;
 -पम् गोच ६९: १; वि ११;

-पाय रुक ८; -पे योशि ५, ५३.
 विष्णु-लक्ष्मी-निकेतन- -नम् योशि
 ५, ४१.
 विष्णु-लिङ्ग- -ङ्गम् शा २, ११; २६.
 विष्णुलिङ्गिन्- -ङ्गिनः शा ११.
 विष्णु-लोक- -कः राधा १, ५-११;
 -कम् वपू १, ६; -के गोच ६८: ८.
 विष्णुलोक-सुसंलभ- -भम्
 त्रिवि ६, ५.
 विष्णुलोका(क-आ)धिपत्य-
 -स्वम् वपू १, ६.
 विष्णु-वक्षः- -स्थित(त>)ता- -ते
 व ४३१: १७.
 विष्णु-चक्षु- -भाय गर ६.
 विष्णुवह्मना- -भा तुल ७०:
 २०; -भाम् तुल ७०: ५.
 विष्णु-वाह- -ह गर ५.
 विष्णु-वाहन- -नाय गर १०.
 विष्णु-विष्वा(धि-आ)दि-शता-
 (त-आ)भिधान- -लक्ष्य- -क्ष्यम्
 निर्वा २९७: १२.
 विष्णु-वृक्ष-फल- -लम् अद्वै २२.
 विष्णु-संश-
 विष्णुसंशित- -तम् मैत्रि ६, २३;
 ७, २.
 विष्णु-सायुज्य- -ज्यम् वा ४१; का
 १६; सं २०.
 विष्णु-हन्- -हा तुल ७०: १०.
 विष्णुवा(ष्णु-आ)भ्रमक- -काःशा ११.
 विष्णुवाभ्रमका- -काम् विधा २.
 विष्णुवा(ष्णु-आ)दिक- -काद् श
 ३०.
 विष्णुवा(ष्णु-आ)दि-भुदि- -द्वया
 मिशि ३८०: १०.
 विष्णुवा(ष्णु-आ)दि-भूति- -संयः
 त्रिधा २, ६०.

विष्णुवा(ष्णु-आ)दि-सुर- -रैः ते
 ५, ६४.
 विष्णुवा(ष्णु-आ)लय- -यम् योशि
 ५, ४.
 विष्णु(<>ष्णु)लिङ्ग- -ङ्गाः सुं २,
 १, १; छां ५, ४-८, १; वृ २, १,
 २०; ६, २, ५-१३; १४; मैत्रि
 ६, २६^b; ३१; कौ ३, ३; ४,
 १९; -ङ्गेन श ८.
 विस- = विस- गम्.
 वि-सुलुत्- -लुतः वृ ६, ४, ४; १२;
 कौ १, ४.
 वि/सृ, विसले सर २, १५.
 वि/सृज्>सर्जि, विसृजते प्र ४, २;
 विसृजति अशि ४, १६; २३; शृणा
 २, ९; वृपू २, ८; ९; षड् ३१६:
 ८; १६; विसृजन्ति भ २, २०;
 विसृजामि आरु १; गी ९, ७;
 ८; विसृजेत् छां ६, १४, १; आरु
 १^{१३}; २^१; नाप ४, २८.
 विससर्जं मना १, १५^१.
 विसर्जयेत् योचू ६७; महा ५,
 ११३; इ १६: ९.
 वि-सर्ग- -र्गः गी ८, ३; नाणाम् वृ
 २, ४, ११; ४, ५, १२.
 वि-सर्जन- -नम् पदं ४; मं २, ५;
 त्रिमा २, ८४; नाप ३, ८६; आपू ६.
 वि-सर्जितव्य- -व्यम् प्र ४, ८;
 शुभा ५; ६; ९; -व्ये शुभा ५.
 वि-सृजत्- -जत् १ संन्या २, ४७;
 गी ५, ९.
 वि-सृज्य प ३, ९; नाप ३, ५१; ७७;
 ८९; ४, ३८; ५-६, १; ९, २; १
 मंन्या १, १; २, ६; प ४१८:
 २३; ४१९; १३; कुं ३; व १;
 उ ३३; ध्रु १९; कपू १, १;

a) तैमा १०, १, १० । b) तस । c) वस । d) वृ. गम्. ५५७८h । e) 'लक्ष्मणम् इति शब्दा. संति. ।
 f) वृ. गम्. ५५७०v । g) व्यु. ! = अग्निदहन- । h) विष्णु इति सात. । i) श्रु १०, ७१, ४ । j) 'नि इति धान. ।
 k) सहृद् 'सर्जयेत् इति धान., 'वर्जयेत् इति शब्दा. । l) 'व्यसर्जं' इति निसा । (प्र. तैमा १०. १, १), इव न^०
 इति BC. यनि. शोषः प्र. (प्र. JC.) ।

२, २; ३; गौ १, ४७.
 वि-सृष्ट- -ष्टः छां ६, १४, १; -ष्टम्
 ऐ ३, ११; कट १५.
 वि-सृष्टि- -ष्टिः वृ १, ४, ६.
 वि/सृष्ट, सृष्ट > स्तर, स्तिर, स्तारि,
 विस्तारयति सार २२९: ११;
 २०^१; २१; विस्तारयन्ति सार
 २२९: ११.
 वि-स्तर- -रः शि २, २; अवि ५;
 गौ १०, ४०; -रस्य गौ १०, १९;
 -रेण मं ४, १, १; मुद्र २; सार
 २५६: १२; शि ३, ६; ७, १३१;
 गौ १०, १८.
 विस्तर-नास(>) सार २३०:
 १८; १९; २५६: १०; २५७:
 १३; गौ ११, २; १६, ६.
 वि-स्तार- -रम् शि १, १७; २, १०;
 गौ १३, ३०.
 वि-स्तारयिष्णु- -ष्णुः सं १७.
 वि-स्तीर्ण, पी- -णीम् मैत्रे २, ५१;
 ध्या १; शि ४, ३; ६, २६०; -णीं
 १वंन्या २, १९; सार २५३: १२;
 शि २, ११; ४, १३; -णीम् शि
 ३, ९.
 वि-स्तीर्थं त्रिता ३, २; यो १, ११;
 सिचि ३८१: ३.
 वि-सृष्टि- -तिः मैत्रि ७, ११.
 वि/सृष्ट > स्फोटि, विस्फोटय-
 विस्फोटय व ४३५: ९.
 वि/सृष्ट, विस्फुरन्ति आप्ये ८: १०;
 विस्फुर-विस्फुर व ४३५: ९.
 वि-सृष्ट- -रत् ध्या ४६; योचू
 ९.
 विस्फुरन्ती- -न्तीः आप्ये ८:
 २३.

विस्फुरत्-सार(क>)का^b-
 विस्फुरत्सारका(क-आ)-
 कार—गाढतमो(म-उ)पम^c-
 -मम् मं १, २, १३^d.
 विस्फुरत्सारका(क-आ)कार—
 दीप्यमान-गाढतमो(म-उ)-
 पम- -मम् अता ७^e.

वि/सृष्ट, सृष्टि > स्फूर्ति
 वि-सृष्टय(त्>)न्ती- -न्यः आप्ये
 ९: ३^f.

वि/स्मि

वि-स्मय- -यः गौ १८, ७७.
 विस्मया(य-आ)पद्य- -द्याः सार
 २४१: १९.
 विस्मया(य-आ)विष्ट- -ष्टः गौ
 ११, १४.
 विस्मयिन्- -यी अष ४, ९.

वि-स्मित- -ताः कृ१; गौ ११, २२.

वि/स्मृ, विस्मरति सार २५०: १३.

वि-स्मृत- -तः १यौत ७८; -तम् मं
 ३, १, १; महा ४, १३२.

विस्मृत-जाप्रद्-वासना-

(ना-आ)नुफल- -लेन मं २, ४, ४.

विस्मृत-पदार्थ-पुनःप्राप्ति-

हर्ष- -र्षः नाप ७^g?

विस्मृता(त-आ)म-पितामह-

-हम् महा ५, १३४.

वि-स्मृति- -तिः विमा २, ३२;

२अव ३३८: २.

वि-स्मृत्य नाद ३९; ४४; तुअ २२;

पित्र ४, ५.

वि/स्मृ, विस्मरन्ते आप्ये ७: १८.

व्यसंसिषत वृ ३, ७, २.

वि-स्मलमान- -नस्य क २, २, ४.

वि-स्मल- -नस्यः क २, १, ४.

विह- विहायस्- ६.

वि/हन्, विजहि व ४६०: ३५^h;

वि...जहि मना १, ९५ⁱ; व

४२९: १४५^j; ४६२: १७५^k;

४६३: २३५^l; वि(जहि) मना १,

९५^h; व ४६३: २३५^l.

वि-जहि- -जम् यो १, ५८; -जाः १यौत

३०; ७६; -जान् १यौत ३१;

त्रिवि ७, ३३; वउ ५, १०; ४८;

-जानि ते १, ४०.

विज-ज- -रः रार १, ७.

विज-जक- -कम् यो १, ६१.

विज-बाहुल्य- -ल्यम् ते १, ४१.

विजबाहुल्य-संजात- -तः

वरा ४, ३९^m.

विज-नाज- -जः हे ५; वउ १, १९.

वैभ्राज- -जम् वउ ५,

१६.

विभ्राज-प्रहन्- -हणि वउ

५, ४४.

विभ्र-विनाशिन्- -शिने ग १५.

विभ्रविनाशिनी- -नी गोउ

६३ⁿ.

विभ्र-सूर्ये(यं-ई)श-शक्ति- -क्तिपु

रार १, ४.

विभ्र-हर्ष- -र्षे वपू १, १.

विभ्रा(प्र-अ)न्तक- -कः हे १२.

विभ्रे(प्र-ई)श- -शः वृजा ४, २२;

-शाम् रार १, ७; रापू ५, ३^o.

विभ्री(प्र-ओ)ष-नाश- -शाम् व

४५६: १८.

वि-जहि वउ- -जुपः वा १०.

वि-हस्य वृ ४, ३, ९.

वि-हरत्- वि/हृ ६.

वि/हा(गौ), विजिहीते वृ ५, १०, १^१;

a) तु. गप्. ७७५४b। b) कस.। c) पस + कस. > यस.। d) कारं गाढं इति श्रद्धा. संदि.।

e) कारसंदीप्य इति निता.। f) न्तः इति पा. १ यनि. शोधः दस.। g) र्थं पुनः इति निता. १ यनि. शोधः द-

(तु. श्रद्धा.)। h) श्र १०, ८३, ३। i) श्र ८, ६१, १३। j) श्र ९, ६७, २१। k) श्र ८, ६१, १३ (वैतु. J.C.

<वि/सृष्ट इति)। l) वस.। m) 'संजातविभ्रबाहुल्यः' इति श्रद्धा.। n) 'प्लना' इति आन.। o) 'विप्लम्'

इति आन.।

विबिहीयाम् वृ ६, ४, २१.
 वि/हा(त्वाणे) > हापि, विजहाति वृ
 ४, ३, ८; नि २; शा २६.
 विहापयति वृ ६, ४, २१.
 वि-हाष सुं ३, २, ८; मंनि ६, १८;
 मना २३; वृजा ३, १; शु १,
 ४; ते १, ४३; नाप २; ७; अता
 ३; सुद्र २; शां १, ७, ३७; पै ३,
 १; ४, ५; १७; गुञ १०; ११;
 अथा ३२; वरा २, ५; शि ७,
 १३९; शु ३८; मव २, ३८; ३,
 ३२; मित्र ५, १०; गी २, २२; ७१.
 वि-हीन -नः भव २, ६४; -नम् नाप
 ६, ९; वरा २, २९; नाः भव २, ६५.
 विहायस् - भसः कुं १५; -वसि
 महा ५, १४२.
 विह- -
 विह-ग- गानाम् शां १, ४.
 विहं-ग- -गः महा ५, ६७;
 गानाम् शां १, ४.
 विहं-गम- -मः वरा ४, ३६;
 गानाम् मिमा २, ५०; सार
 २३४: ९.
 वि-हित- वि/पा ६.
 वि/ह/ (< हृ) ह्ये, विहृष्टंति छां २,
 १९, २.
 वि/ह/ ह्ये, विहरति त्रिवि ५, १०; वि-
 हरामि १ संन्या २, ५५; विहर
 नाप ६, ३७; महा ६, १; ६६-९१;
 सार २७८: ५; विहरेत् १ संन्या
 २, १२; ५९; शा २०; शुमु १९.
 विजहार वृ ४, ५, १५; वि-
 हरिष्यति शु ३, १५.
 वि-हर- -रन् १ मोत १, ९; नाप ४,

१८; महा ६, ७३; अन्न ५, ९९;
 वरा ४, १; -रन्तः अन्न १, ३३.
 वि-हार-
 विहार-क्रीडा-पर(>)रा- -रा
 सार २८७: ११.
 विहार-पर- -राणि सार २७६:
 २२.
 विहार-शय्या(व्या-व्या)सन-
 मोजन- -नेयु गी ११, ४३.
 विहार-स्थ- -स्थस्य सार २५६:
 १५.
 विहार-स्थल- -लम् गार २६१:
 २३; २८३: १५; २८८: ८.
 विहार-स्थान- -नम् सार २५५:
 १; २८३: १४; नाति सार २५५:
 ३; -ने सार २६३: ११.
 विहारो(र-उ)पदेश- -वात् वस्
 २, ३, ३४.
 वि-हारि(र>)णी- -णीम् त्रिवि ६,
 १०; २३.
 वि-हत- -तः महा ३, १.
 विहृष्यिष्यामि^१ मना २, ११.
 वि/हृल्
 वि-हृल-
 विहृल-चेतस्- -तसाम् सि ७,
 ९५.
 वी(वि/इ(गतौ)), ष्येति वी ३, १^१; २४
 ३५: १; ११; वि...ष्यति वृ ४, १;
 १; वि(एति) वृ ४, ११; मना १, १;
 शां २, १; विवन्ति गी ४, ४३;
 शां १; विवन्ति वृ २, ५१; आर्षे ९:
 ४; वि...ष्यति पा ९.
 वीयाय छां ४, ९, ३^१; वृ १,
 ४, २.

वी(वि-इ)त्-
 वीत-कक्षय- -यः नाप ५, ३७,
 नैः यो १, ४०.
 वीत-मन्यु- -न्युः क १, १, १०;
 ११.
 वीत-राग- -गः महा ६, ६७;
 अन्न ४, ९०; -गाः सुं ३, २, ५;
 अन्न ४, ११; सु २९४: ४; गी
 ८, ११.
 वीत-राग-भय-क्रोध- -यः गी
 २, ५६; -भयः गी ४, १०; -धैः
 गी २, ३५.
 वीत-राग-विषय- -यम् योम्
 १, ३७.
 वीत-शोक- -कः क १, २, २०१;
 सुं ३, १, २; वृ २, १४१; ३, २-११;
 मना २, १२, ११; नाप ९, १३१;
 शा १८१; महा ४, १५; अन्न ४,
 ३५; वृ ४८; नाप १, ८१;
 पा ९, ३१; -कम् गी ४, ७८; अन्न
 ५, ६०.
 वीत-शोक-मय- -याः २ प्र
 ३६: १४.
 वीत-शोक-भया(य-व्या)यास-
 -सः महा २, ७४.
 वी(बधा). वीते^१ क्षाम २५: ९.
 वीति^१ - -स्ये ३ प्र ३६: १, १११.
 वीति-होम-समन्वित^१ - -नम्
 दे ११.
 वी(वि/इ)श्च > ईति, वीक्षते वृ ५,
 १; वीक्षन्ते मिता ४, ११; गी
 ११, २२; वीक्षसि ते ५, ६५;
 वीक्षे १ अत्र २८; वीक्षस्ये ते ४,
 ८०; वीक्षेत सुभा ३.

a) 'विनिर्घर्षे' इति आन. । b) ह्यु ? =विषय- । c) 'विहरन्ति' इति आन्या. । d) पापा ३, ३८ ।
 e) 'नम्' इति आन्या. संदि. । f) द्र. गृ. वृ ६७३: १ । g) निसा. ? [द्र. 'विहृष्यिष्यामि' (कालि. तैत्ति १०, १, १)]
 'विहृष्यिष्यामि' इति शोधः द. [द्र. मे. (तैत्ति.)] । h) 'वसि' इति निता. आन्या. स, 'वसि' इति आन. आंशा. (५, १)
 च वसि. शोधः द. [द्र. वी. (आन.)] । i) तैत्ति १०, १, १ । j) 'वि...ष्यत' इति श्र १०, १३, १; आन., J.C.; पै. २.
 संदी. ष्ये 'विश्वोकायमि' इति । k) तैत्ति १०, १०, १ । l) गी लटि प्र १ । m) भाव. =रादन- । n) श्र ६,
 ११, १० । o) वृ. =रेह-मीमांसुर- ।

वीक्ष्यते ते ५, ५५.
 वी(वि-ई)क्षमाण-णे योशिष्ठ, १३;
 २०.
 वी(वि-ई)क्षयत्-यन् नाप ४, १९.
 वी(वि-ई)क्षय सार २७५: १३; व
 ४५५: १३.
 वी(वि-ई)क्षयमाण,णा-णा महा
 ५, ११२; णे योशिष्ठ, २०.
 वीचि-चय: पित्र १, १२; -चिभि:
 अक्ष २, ४१; छाग २४: २२.
 वीज-बीज-गु.
 वी(ण>)णा^{1b}-णाम् द १०;
 -णायाम् छां १, ७, ६; -णायै वृ २,
 ४, ९; ४, ५, १०.
 वीणा-दण्ड-ण्ड: योशिष्ठ ६, ८;
 -ण्डेन जाद ४, १०.
 वीणादण्ड-समुत्थित-त: प्या
 १०२.
 वीणादण्डा(एड-आ)ध्रि(त>)-
 ता-ता शां १, ४.
 वीणा-वाद-दस्य वृ २, ४, ९; ४,
 ५, १०.
 वीणा-वादन-तत्पर-रम् सार
 २३०: ११.
 वीत-वी द्र.
 वीति-वी(°वधा.) द्र.
 वीधि^{1b}-धय: सार २५३: ३.
 वीर-र लां २१६: १५; नो ३, ६;
 -र: छां ३, १३, ६; वृ ५, १३, १;
 वृ २, ९९; वृ २, ११; ४, ४, ५;
 ५, १; २; श ११; -रम् वृ ६, ४;
 २८; वृ १, ११; २, ६; ९; ५,
 ३; ६, १; त्रिवि ७, ४०; रार २,
 १०३; अव्य २; पा ७, ४९; वपं
 ३१२: १०; व ४४१: २०९^b;
 ४४७: ३९^b; ४५१: १०९^b;
 ४५४: २९^b; ४५७: १२; -रान्

वे ४, २२^१; मना २, ४६^१;
 ५३^१; २शिसं २९^१; व ४६२:
 १९; -रे वृ ६, ४, २८.
 वीर-रव-रवात् वृ ७, ९.
 वीर-चामु(एड>)ण्णी-ण्डि व
 ४५७: १९.
 वीर-भद्र-द्र: श ६.
 वीरभद्र-गिरिशा-शंकरै(र-ए)-
 कपाद्-अहिषुंघ्या(घ्य-आ)-
 दित्य-रया: सूता ५, ७^१.
 वीरभद्रा(द्र-अ)यत्तार--र लां
 २१४: ७.
 वीर-राम-म: रार २, ७१; -म्या
 रार २, ६९.
 वीर-रुद्धमी-रुद्धमी: सी ३७.
 वीर-वत्-वत: वृ ६, ४, २८.
 वीरवती वृ ६, ४, २८.
 वीर-वक्ति-क्ति: सी ३७.
 वीर-सिंहासन-ने जाद ३, १.
 वीर-स्त्री-स्त्रियम्-२कौल १२.
 वीर-हत्या-हत्याम् मना २, ४०^१;
 वृजा ८, ३; वृ ५, १३; कलि ३;
 राउ १, २; विद्या १; -हत्या:
 तुल ७१: २३.
 वीर-हनु-हा शा २६.
 वीर-हनुमत्--मन् लां २१६:
 १२.
 वीरहनुमत्-साध्य-साधना
 (न-अ)घोर-मूल-मन्त्र-
 -न्त्रस्य लां २१३: १.
 वीरा(र-अ)ध्वन्-ध्वनि जा ५१^१;
 पप ४१८: १६^१; या १, २;
 -ध्वानम् कृ १; कथु २, ३.
 वीरा(र-आ)वली--लि हंपो ११.
 वीरा(र-आ)सन^१-नम् त्रिवा २,
 ३५^१; शां १, ३, ४९^१; जाद

३, ६९^१; वरा ५, १६.
 वीरासना(न-अ)प्यासित-तम्
 रार २, २४.
 वीरासना(न-आ)रुड-डम् म
 १, १.
 वीरासना(न-आ)सीन-नम्
 रार २, ४.
 वीरो(र-उरका>)रुक्-रुकाय नाप
 ४, १९.
 वीरे(र-ई)श्वर-र: गोठ २३.
 वीर्ये-र्ये के २, ४; ३, ५, ९; क
 शां ९०; प्र ६, ४; तै शां ९०; छां
 ३, १, ३; २-५, २; वृ १, २, ६; वे
 शां ९०; वृजा २, १०^१; १२; ५,
 १७; कै गर्भे श्रयि ना मना म
 शां ९०; काला सु सता शु ते प्या
 मवि १योत द रुक शारी योशि
 शां ९०; अव्य १; अक्ष १०^१; ए
 अक्षि १भव कठ रद्ध यो पं प्रा वरा
 कलि शां ९०; १३ ३०: १९^१;
 शो ५२: ९; व ४६६: १०^१;
 -र्याणि नाप ४, ४९^१; -र्याय
 नाप ४, १०; वृ २, १३; -र्येण छां
 ४, १७, ४-६; ८; ते ६, ९५.
 वीर्ये-तम-म: वृ २, १३.
 वीर्ये-लाम-भ: योस् २, ३८.
 वीर्ये-वत्-वन्त: म २, २९;
 -वन्ति छां १, ३, ५; -वात् वृजा
 ५, १७; पि १४; शी १, ५, ६.
 वीर्येवती-ती शा
 ३३^१; सु १, ५, १९^१; काम ९.
 वीर्येवत्-तर-रम् छां १,
 १, १०; १योत ५६.
 वीर्येवत्-त्व-त्वात् अव्य २.
 वीर्यो(र-उरका>)रुक्-रुकाय
 त्रिवि ७, ४२.

a) वृ १: १२३-। b) वाधविशेष-। वै ११ यद्र.। c) षडस्य इति अख्या. संदि.। d) वृ १: ११५-। e) वै ११ यद्र.। f) अ ३, ४, ९। g) अ २, ३२, ४। h) अ १, ९, १; २०। i) अ १, ११४, ८। j) अ १०, १८, १। k) षड्यादीना: इति लैवि. पा. १ यनि. शोध: द्र.। l) तैआ १०, ५०, १। m) ध्वाने इति पा. १ यनि. शोध: द्र. (द्र. अख्या. संदि.).। n) योगासनविशेष-। o) तैआ ८, १, १। p) 'द्वितीयम्' इति अख्या. संदि.। q) अ १, १५४, १। r) 'वीर्येण' इति अ १, १५४, २।। m) वाध २, ८।

वी(वि)-रुघ(रुघ)^१ - रुघः अशि
 ६, १९^०; ३.
 √बु(वरणे), > वरि, वृणते. क १, २,
 २३; मुं ३, २, ३; रक्षिसं १६;
 वृणोति श्रे ५, १२.
 वृणोति क १, १, २१; २, १; ३; कौ
 ३, १; वृणे क १, १, १०; १३;
 छां २, २२, १; २प्र ३३: २१;
 वृणीमहे छां ५; २, ७९^०; ९^०व
 ४३९: १४; ४४४: १३; ४५०:
 ३; ४५३: १३; वृणीत्व क १, १,
 १९; २१; २३; २४; मै १, १;
 मैत्रि १, २; मैत्रि १, १; कौ ३, १;
 राउ ३, २; वृरां १, १; इ १८: ११;
 १४; २प्र ३३: २१; अष्टुणीत २प्र
 ३३: २१; अष्टुणीया: क १, १,
 १९; वृणीत छां १, १, ०, ६; वृ १,
 ३, २८; वृणीया: छां ५, ३, ६.
 वमे वृ ४, २, १; कौ १, १; गोड
 १७; वपू १, ५; अष्टुषि छां १,
 ११, २.
 वरय अश १, १०; सार २७७:
 २३; २८६: १२; वउ ३, २१;
 वरयेव इ १९: १७.
 १वर - र: क १, १, २०; २२; २७;
 २९; वृ ६, २, ५; सार २३२: २३;
 २६१: २१^०; २२; २७८: २;
 २८६: १२; -रम् क १, १, १०;
 १६; १९; २१; २४; छां ५, ३, ६;
 वृ १, ३, २८; ४, ३, १; ६, २, ४;
 मै १, १; मैत्रि १, २; मैत्रि १, १;
 कौ ३, १^०; अश १, १०; विता
 २, १७; गोड १७; इ १०: ३;
 १८: ११; २प्र ३३: २१; सार

२४८: १२; २६१: १९; २७७:
 २३; २८६: ११; शि ३, १२;
 -राणाम् क १, १, २०; -रान् क
 १, १, ९; ३, १४; वउ ३, ३९; -रेण
 क १, १, २; १९; सार २३३: ३;
 २६१: १८; २०; २८६: १३;
 -रेषु वृ ६, २, ६;
 वर-अ- -त्रे^१ पा ७, ६.
 वर-द, दा- -द: त्रिवि ११^०; रया
 २०; वपू १, ४; ५; २, ३; -दम् श्रे
 ४, ११; १योत ९३; १०१; ग
 ११; १प्र ३१: २०^०; वपू २, ३;
 -दस्य पा ८, २; -दा मना २,
 ३४^०; ३६९^०; सौ १, २९^०; नाव
 ५, ३९^०; -दाय पा ६, ६; ७;
 ७, ६; १०, २; वपू १, १.
 वरद-सूक्ति^१ - -तये ग १५.
 वरदा(द-आत्मक) > रिम-
 का- -०के सानि १०^०.
 वरदा(द-अ)भय-दा-
 (यक) > यिका- -काम् शि ६,
 ११५.
 वरदा(द-अ)भय-हस्त-
 -स्तम्भ्याम् तुल ७०: १६.
 वर-दान - -नेषु गुणो ४२०: ९.
 वरदान-मुख्य - -रुघः पा
 ९, ४.
 वर-दा(द-अ)भय-हस्त(क) > -
 का- -काम् दे १५.
 वर-प्रद - -दाय पा ६, ५.
 वर-प्रभृदि - -द्वये पा ९, २.
 वरा(र-अ)गतर - -रम् राउ ३, २.
 वरा(र-अ)भय-खड्ग-मुण्ड-
 संहित - -ह(स्त) > स्ता- -स्ता

रया. १०.
 १वरण-
 वरण-भेद- -द: योसु ४, ३.
 वरणीय- -य: क १, १, २७.
 वरेण्य- -ण्य: श्रे ५, ४; त्रिवि १०३;
 -ण्यम् मुं २, १; वृ ६, ३, ६९^०;
 श्रे ४, १८; मै ५, ७९^०; मैत्रि
 ६, ७९^०; २४९^०; मना २, ३५९^०;
 अशि ५, १७; श २; त्रिवि ७,
 ३९^०; ४४^०; सू ६९^०; सावि
 १०^०; ९^०; विता १, ५९^०; १९९^०;
 २२; २३; २७९^०; ४४^०; ५१; ५२;
 आर्ष ९: १७; वउ ३१ ३: १; पारा
 २९^०; ५९^०; मिशि ३८०: ३; सार
 ४०५: १३; १८; शु ६१; ९^०व
 ४२९: १८; ४^०७: ९.
 वरेण्य-ख- -खाव् १अव १२.
 वार्य- -यांशि वृ ६, ४, २५९^०.
 वृणीत्वा^१ कथं १; १.
 √बु(आच्छादने)
 २वर-
 ९^०वर-सद- -सत् क २; २; मना
 २, १२, २; २, ४०; वपू ३; ६; नाप
 ५, १; विता ४, २७; वपू २, २.
 २वरण-
 √वरणि
 वरणक- -कम् सांका १३.
 वरुध- -धम् मना २, ७९^०.
 वृत, ता- -त: योशि १, १६; -तम्
 ते ६, ४८; १योत ८; योशि १, ६;
 -ता लु ८; बि ६, १७१.
 वृत्वा श्रे ३, १४^०.
 √बु(प्रतिपातने) > वारि, वारिपति जा
 २; राउ ३, १; वारय व ४६६: ८;
 वारय-वारय लो २१५: १८.

a) वैपर वर. । b) शौ ७, ८२, १। c) श्र ५, ८२, १। d) श्र १, १२, १। e) सङ्ख १८: इति अत्रान्, सांभा
 ५, १। f) व। १। ग्राय इत्यस्य ल. छान्दसः नैऋ. वर्षीविहारः (जु. पाठो.) । पात्र. जु कोपपदात् । √आ इत्यतः वर्तरी
 र्धृष्प. उ. अ. (पा ३, १, १३३) इति कृत्वा ऋ- इत्यस्य ल. र. । g) ०दा इति अच्चा. । h) पा. १^० इति
 योषः र. । i) तैसा १०, २६, १। j) शौ १९, ७१, १। k) = देवीविशेष- । l) = हरिश्चक्रविशेष- । m) भीष्म^० इति
 निता. । n) श्र ३, ६२, १०। o) श्र १, १६४, ४५। p) सतः तितरन्म उ. म. (पा ३, ४, २१)। q) श्र ४, ७५, ५।
 r) तैसा १०, ६३, १। s) श्र १०, ९०, १।

चारयमाण- णः सं ९.
 √वृ(°बधा.)
 इवर, रा^० -०२ महा२, ३३; ४, १;
 जाद ४, ४०; ४३; ४६; गी ८, ४;
 -रः वरा ५, ४०^b; ग १४; इ १५;
 ५; -रम्^० गौ ४, १; जु १७^d;
 १संन्या २, ६२; अन्न १, १; ४,
 ४३; जाद १, १०; वरा १, १; इ
 १५; ५; शि ७, ११९; १२६;
 -रा जाद १, ८; -राः जु १५^d;
 -राणाम् पा ६, ९; -राम् पा ९, २.
 वर-कर-तल-ल्लयोः सौ २, ३.
 वर-मणि-स्तम्भ-भ्रमैः सार
 २६२: २.
 वर-मुनि-देवी-वि वृक्ष ३६:
 २२.
 वर-लक्ष्मी-क्षमीः वृक्ष २७: ६.
 वर-वर-द-द वृक्ष २९: ८;
 १२; १६; २१; ४३०: ४; ९; -दाय
 वृक्ष ३४: २२.
 वर-वर्ण-
 वरवर्णि(न्)>नी-०नि गु
 २.
 वर-वेश्म-भूत-तम् मना २,
 १२, ३१^०.
 वरा(र-आ)व्य-व्यम् द १०.
 वरा(र-आ)न(न)>ना-०ने गु
 ५; ८४.
 वरिष्ठ, छा^० -छः प्र २, १; ३; सुं
 ३, १, ४; अशि १, ७; नाप ५, ५;
 श ४; पा २, ३; ९, ४; छम्सुं १,
 २, १०; २, २, १; ११; ए १०; पा
 ८, ७; ९, २; -छा पा १०, १; -छाम्

कै १, १; अ १; वरा २, १; ह १;
 -धाय पा ६, ५; ९, २.
 धवर^०-
 वर-वधू-धूः रार ४, १०.
 धवर^०-रः वपू २, ४.
 इवर^०-
 वर-तन्तु^०-
 वारतन्त(व>)वी^{११} -वी
 गु २.
 वृत्र^१ -व्राणि वृ ४६०: ११५^०.
 वृत्र-हृत्र-हृन् मना १, ११५^०;
 -हा मना १, ९५^०; २, ५५५^०; व
 ४६०: ४५^०; ४६४: १५^०.
 वार्धन-धनः अरु ३५^०;
 नाप ४, ३८; पप ४१८: ३१.
 वत^० -तम् तै ३, ७-१०, १; छां
 २, ११-२०, २; २१, ४^१; वृ १, ५;
 २३; मै १, १^१; मैत्रि ४, ३; अशि
 ५, २२; वृ ६, ४; वासा ९, ते
 २, ४^१; ६, २७; नाप ४, २; त्रिवा
 २, ३४; शां १, २५^१; १संन्या २,
 ८९; जाद २, १; वरा ५, १४;
 जावा १८; ऊ ६४: ३; गोच ६८:
 ११; लिं ३१०: १०; वट्ट ३१७:
 १२; १कौल ७: १; २कौल ९;
 -तस्य शि ४, ५१; -ताव् म २,
 १६; -तानि श्वे ४, ९; नाप ६,
 ३४; योशि ६, ४६; इ १९: २२;
 २०: १; सार २७८: ७; गु ५४;
 -ते लिं ३०९: ८५^०; -तेन पा ३,
 १; सार २८२: २१.
 वत-कारिन्-रिणः सार २८८:
 १७^१.

वत-धर-रः सूता २, ५.
 वत-धारण-णम् सार २३६:
 १४.
 वत-नियम-मः काम १७.
 वतनियम-लक्ष्म-नात्
 सांस् ४, १५^१.
 वत-मीमांसा-सावृ १, ५, २१.
 वत-यज्ञ-तपो-दान-होम-स्वा-
 ध्याय-वर्जित-तम् १संन्या २,
 ५.
 वत-वत्-वान् २संन्या १७: ७.
 वतित्^० -तिनः शि ७, ७७-ती
 जा ४; वृजा ३, ४; ४, ८; नाप ३,
 ७७; पप ४१८: ५; गोत २; वा १, १.
 वतौ(त-उ)पवास-धर्मा(र्ष-अ)-
 धर्म-मांः सार २८७: १५.
 रृष्टुक^०-
 वृका(क-अ)रुण^०.
 वार्कौ(णि)>गी-
 वार्कौणी-पुत्र-अः, -नात्
 वृ ६, ५, २^१.
 रृष्टुक-वृक्वण-√वरच् द.
 वृत्^१ -क्षः वृ ३, २८, १; ४; ५; श्वे
 ३, ९५^०; मना २, १२, ३५^०; कौ १,
 ३; ससा १, १७^०; अवि ३७; रुह
 २२; शा १८; गु ४६; क्षम्सुं
 ३, १, १५^०; वृ ३, १, २८, ६; श्वे
 ४, ६५^०; कौ १, ५; सुवा १३; ध्या
 ८; नाप ५, १; शा ११; नाउ १,
 ३५^०; अव २, २५^०; क्षस्य तै १,
 १०, १; छां ६, २^१; ११, १; मना
 २, ११५^०; नाप ४, ३८^१; -क्षाः
 इ ११: १२; सार २२१: १५; १६;

a) धा. अर्थः? =उत्तम-। b) तु. गपू. वृ ६९२ज। c) वा. क्वि. द्र.। d) ष^० इति अख्या.।
 e) परमेष्ठम् इति निता. यनि. शोषः द्र. (तु. तैत्रा १०, १०, ३; वैतु. नादी., J.C. °रं वे^० इति)। f) वैतु. पा. (६, ४,
 १५७) <उर-?। g) धा. अर्थः? =भर्तृ-। h) तु. गपू. वृ ६३०। i) धा. अर्थः?। j) =अविशिरोप-।
 k) =आयर्वणशास्त्रविरोप-। l) वैपश् यद.। m) अ १०, ८३, ७। n) 'वृत्तहा' इति अ २, ४७, ३।
 o) अ १०, १५२, २। p) अ १०, ८३, ३। q) मंवा २, ९, ५। r) वृ^० इति अख्या.। s) अ १०, ५७, ६।
 t) कृ^० इत्यपि पामे.। u) व्यु. अर्थः?। v) तैत्रा १०, १०, ३। w) 'गुप्तवटवृक्षः' इति आन.। x) अ १, १६४, २०।
 y) तैत्रा १०, १, १। z) तैत्रा ७, १०, १।

२२२: ७; १९; २१; २२३: १;
 २२४: ९; २३३: १२; २३७: ३;
 २५४: १; २; २५५: २; २५९:
 ११; २६६: ९; २६७: १३; २६९:
 ६; २३; २७८: ११; २८१: ६;
 ११; २८७: २२; क्षाणाम् छां ६,
 ९, १; सार २३३: १८; २५५:
 १०; -क्षात् वृ ३, ९, २८, २; -क्षे
 सुं ३, १, २; श्वे ४, ७; कि ११;
 -क्षेषु सार २२२: २३; २२५: ७;
 -क्षे: सार २३७: ६; शि ४, ४९.
 वाह्यं-

वाह्यां(ह्यं-अ)धं-संमित-
 -त्म् शि ६, २६५.
 वृक्ष-काला(ल-आ)कृति- -तिभि:
 श्वे ६, ६.

वृक्ष-गुल्म-लतौ(ता-ओ)पधि-वन-
 स्पति-गुण-वीरुध्-भादि-
 -दीनाम् सांस् ५, १२२.

वृक्ष-गुण-पर्वत- -ता: ते ६, १२.
 वृक्ष-त्व- -त्वम् तुल ७०: १७.
 वृक्ष-धर्म- -मं गोज १३०.
 वृक्ष-मूल- -लम् शा ११; -लानि
 नाप ३, ५५; -ले सुवा १३; नाप
 ५, २४; नि ९.

वृक्षमूल-निकेत- -त: नाप ५,
 १३.
 वृक्ष-रूप(प>)पा- -पा तुल ७०: १७.
 वृक्ष-लता- -ता: सार २३७: ५.
 वृक्ष-लतौ(ता-ओ)पधि- -धय: सार
 २४६: १६.

वृक्ष-शाखा- -खा: सार २६७: २२.
 वृक्ष-संसार- -रा: सार २८८: ८.
 वृक्षा(ल-आ)प्र-प्रधि(त>)ता-
 -ताभि: सार २६५: २१.

वृक्षा(ल-आ)मोहण- -गम् नाप ७.
 √वृज्(वपा.)>वर्जि, वृज् के १,

१, ८; वृ ६, ४, ३; वृजते वृ ६, ४,
 ३; वृद्धि कौ २, ७.
 वर्जयति भव ४, ९; वर्जयेत् छां
 २, २२, १; १योत ४६: ४८; नाप
 ३, ७२; ४, ३; ५, १२; ३ १; ६,
 ३२; १संन्या २, ७६; कुं २^१;
 रुजा १, १२; २, १७; वरा २,
 ३७; करर; इ १४: ६; १६: १३;
 कथु ३, १: २.

२वर्ग- -गै: कौ २, ७.
 वर्जयित्वा १योत ६२; महा ५, ५१;
 १संन्या २, ७४; कि ४; शा १८.
 १वर्जित- -त: ते ५, ७; -त्सम् १योत
 ३३.
 २^०वर्जित- -त: ते ४, ७७.

वज्यं-
 वज्यां(ज्यं-अ)वज्यं-कल्पना-
 -ना नाप ६, १५.
 वृजिव- -नम् गी ४, ३६.

वृणीत्वा √वृ(वरणे) द.
 √वृत्(वधा.)>वर्ति, वर्तते छां १, १,
 ९; गौ ३, १; हं ५; वृजा ७, ७;
 वृज ५, १; ससा १, ७; वस् २७;
 ते ५, ५५; ध्या २३, १^१; ववि ९;
 वर्तन्ते गी ४, ६०; तसा १, १३;
 ध्या ५८; वोच् ७२; मं १, २, ९;
 अता ६; वरा ५, २८; सु १, ८;
 स्व ६१: १३; गी ३, २८; वर्तते
 श्वे ४, ४; वर्ते १अव २३; गी ३,
 २२; वर्तौमि अशि १, २; वर्तौमि
 श्वे १, १; वर्तौमि १अव २४;
 वर्तध्वम् अक्ष ११^०; वर्तते १योत
 ७७; गी ६, ६; वर्तेरु ते १, १,
 ४^१; वर्तेधा: ते १, ११, ४^१;
 वर्तेयम् गी ३, २३^१.
 वर्तेयत् नाप ५, ३५; १संन्या २,
 ६०; ६२.

वर्तन- -नम् मे २, ५; प ४, ८.
 वर्तनी- -नी छां ४, १६, १; ४;
 -नीम् छां ४, १६, ३; न्या वृ २,
 २, २.

वर्तमान, ना- -न: प्र १, ८; छां ४,
 १६, ३; मै ५, ८; मैत्रि ६, ८;
 अक्षि १; गी ६, ३ १; १३, २३;
 -नम् गर्भ १; वस् २४; ते ५,
 ७८; नाप ९, १८; पं २२; -नस्य
 मैत्रे १, ३; -ना: क १, २, ५; सुं
 १, २, ८; ९; -नानि गी ७, २६;
 -नाम् लक्ष ५, ५८^०; -ने गौ २,
 ६; ४, ३ १; अक्ष २, २८.

वर्तयत्- -यत् छां ८, १५, १.
 वर्ति-

वर्षा(ति-आ)धार-क्षेह-
 योग- -गात् मैत्रि ६, ३६.
 वर्तिध्वमाण- -यानि सार २८५:
 १५.

वर्तुल- -लम् योरा १५; शि २, ४;
 -ले त्रिता ३, २४.
 वर्त्मन्- -रम् नाप ६, ४; पित्र ६, ३;
 गी ३, २३; ४, ११; -रम्ना त्रिमा
 २, ११६^१; -रम्नी छां ४, १५, १.

वृत्-वृत्- वृत्ता व ४३७: १९.
 वृत्त, चा- -त्सम् वृ ४, ५, १; मै १,
 १; मैत्रि १, २; मैत्रे १, १; वृजा
 २, ३; ते ४, २७; १योत ९८;
 नाप ३, ७४; ४, २; त्रिमा २, ५५;
 त्रिवि ७, ३१-४१; ४२^१; ४३;
 ४४; ४६; सार ३, १^१; योशि १,
 १७८; ५, १५; सूता ५, ३^१; नाप
 ६, २; शि ४, ८; ६, १४५; २१२;
 सुसुं ७; -त्ता शि ४, १५; -त्तात्
 त्रिवि ७, ३१-४१; ४४; ४६.
 वृत्त-व्युत्- -तस्य मैत्रि ७, १.
 वृत्त-प्रप- -यम् त्रिवि ७, ४८;

a) 'मैत्रे' इति शब्दा. संटि. । b) 'स्वाय' इति शब्दा. । c) सकृत् गा. (१५४) अनु √वृत् > ०^१त्त्वम् इत्यत्र यनि. शीघ्र: कर्तव्य: । d) 'वर्तय' इति SCHR. पाठे. [वि. वे. (NTA २, २३१)] । e) 'नम्' इति निगा. संटि. । f) 'वैप' यद. । g) 'वर्तनात्' इति शब्दा. संटि. । h) श्रु ४, ३१, १ । i) वधा. द. । j) मत् ० इति शब्दा. ।

रार ३, १; रापृ ४, ४४; ५, ४; सौ १, ३.

वृत्त-भानु- -नुम् सूता ६, ११^०.

वृत्त-युगल- -लम् सूता ५, ३.

वृत्त-विचिकित्सा- -नसा तै १, ११, ३.

वृत्त-हीन- -नस्य भव २, ६६.

वृत्ता(त-आ)कार- -रम् शां १, ४; -रेण त्रिवि ७, ४३; रापृ ४, ४८.

वृत्ता(त-अ)वकाश- -शेषु त्रिवि ७, ४८.

वृत्ति- -तयः नाप ५, १; पै ३, १;

अध्या ३६६; सांस् २, ३३; योस् १, ५; -त्तिः हं ८, वृजा २, २; ते १, ३२; ४५; त्रिमा २, ३३; अध्या ४४; जाद २, १२; सार २३०:

४; २८३: ९; सांस् ५, १००;

सांका १३; २८; २९; ३०^१; योस् १, १०; ३, ४४; -त्तिभिः कथु २,

३; -त्तिम् ते १, ४३; ४४; ४७; कुं १३; कथु ३, ७; सांका ३१; -न्या

ते १, ३७; नाप ५, २४; २७; शा ११^१.

वृत्ति-क्षय^b- -यात् मै ४, ४, १;

मैत्रि ६, ३४; मैत्रि १, ४, ३.

वृत्ति-ज्ञान- -नम् ते १, ४९.

वृत्ति-तस(>:) सांस् ५, १०५.

वृत्ति-निरोध- -धात् सांस् ३, ३१.

वृत्ति-विस्मरण- -णम् ते १, ३७.

वृत्ति-व्रतति-घारिन्- -रिणः

अथ ४, ४१; सु २, २, ४८.

वृत्ति-शून्य- -न्यम् योशि ६, ६२.

वृत्ति-सारूप्य- -न्यम् योस् १, ४.

वृत्ति-सिद्धि- -द्धिः सांस् ५, १०६

वृत्ति-स्थ- -स्थम् अत्र ४, ५१.

वृत्ति-हीन- -नाः ते १, ४६.

वृत्त्यु(ति-उ)पार्जन- -नम् आप्र ३.

वृत्र- √वृ(°बधा.) द.

वृथा^० मैत्रि २, २२; ते १, ४३; रार २,

३८^१; रुजा १, ८; वरा २, ७४;

सु २, २, ६३; तुल ७०: ८; ७१:

१४; सार २५६: २२.

वृथा-कपाय-कुण्डल- .

वृथाकपायकुण्डलिन्- -लिनः

मैत्रि ७, ८.

वृथा-नोधी- -घटा १योत ८०.

वृथा-जल्प- -ल्पः १संन्या २, ८५.

वृथा-तर्क-दृष्टान्त-कुहकै(क-इ)-

न्द्रजाल- -लैः मैत्रि ७, ८.

वृथा(धा-आ)लाप- -पः १संन्या २,

७९.

√वृध्>वर्ध, वर्धते वृ ४, ४, २३;

महा ३, ३६; ५, १८१; यो १, ४३;

७६; वरा १, ८; ५, ४७; ४९; इ

१२; १३, ऊ ६४: १०; शि ६,

१६९; ७, ८०; पित्र ३, ७^१; वर्धन्ते

ते २, २, १; मैत्रि ६, १२; वरा

५, ४८; वर्धताम् शि ६, १५७;

अवर्धत अव्य १

ववृधे पा २, २; वावृधे मना १,

१५^१; अवृधत् वृ ४, ५, ५.

वर्धयन्ति ते १, ४४; √वर्धय> या

जा ४; नाप ३, ७७, पप ४१८:

११; या १, १; वर्धयत् शि ६,

१४३; १७०.

वर्धन- -नेन वरा ५, ४९^१.

वर्धमान- -ने नाद ३३^१; -नेषु पित्र

३, ७.

वर्धयित्वा वि ३२.

√वावृधान- -नम् शौ ५३:

२२.

वृद्ध, द्वा- -द्धः ध्या ७४; योवृ ४७;

योशि १, १०८; अत्र २, ३०; इ

१२; २१; -द्धाते १, ४५; ६, २८;

शां १, ६; गार ४०६: २२; -द्धा:

इ १२: १५; -द्धायाम् महा ५,

१६८; -द्धेषु महा ५, १६८; अत्र

२, ३०.

वार्धक- -कै महा ३, ३६.

वार्धक-कम्पित- -त्म्

महा ३, ३५.

√वृद्ध-श्रवस्- -वाः प्र सुं मां

शां^१; मना १, ९; अशि अ वृजा

वृप् नाप सी श त्रिवि रार, रापृ

शां पप अत्र स् १आ पाशु पत्र

त्रिता दे भा अ भ ग मवा गोपृ ऊ

ह दत्ता गर अवि पदं शां^१; सि

शां; रा ४२३: १; पित्र शां.

वृद्धा(द-आ)श्रम- -मम् कर १;

कथु २, ३.

वृद्धो(द-उलका>)लक- -ल्काय

नापृ ४, १९.

वृद्धोल्का(ल्क-आदि)- -दयः

नापृ ६, ५:

वृद्धि- -द्धिः अशि ३, २^१; तै ४, २३;

६, १६; १संन्या १, १; -द्धिम्

मैत्रि ६, १४; वरा ५, ४८.

वाधुषिक^१- -कः इ १७: २;

-कम् इ १७: ४.

वृद्धि-हास-भाज्- -रवम्

त्रस् ३, २, २०.

√वृध्- वृधे व ४४२: ९; ४४७:

१५; ४१२: २; ४५५: ७.

वृधत्^१- -धत् २२३३: ५.

a) ०नुमती^० इति पा. १ ०नुमती^० इति द्विपदः शोध. द्र. । b) उप. = १ल्य- । c) श्रव्य. वेप १ यद्र. । d) ०ता इति निसा. १ यनि. शोधः द्र. (तु. श्रव्या.) । e) श्र ९, ९७, ४० । f) श्र ३, २९, १० । g) ०धमाने व, बन्धने^० इति श्रव्या. संदि. । h) ०नः इति श्रव्या. । i) श्र ३, ४७, ५ । j) श्र १, ८९, ६ । k) 'बद्धः' इति श्रान. । l) पावा ४, ४, ३० । m) श्र १, ८९, ५ । n) तु. गपृ. पृ २४१b ।

वृन्त-

वृन्त-भाग- नो वि १२.
 वृन्ताक^१- -कम् शि ६, ७८.
 १-३वृन्त- = १-३वृन्त- गण्.
 वृवृ(न्व)न्दा^१- न्दा कृ २५.
 वृन्दार^१-
 वृन्दारक- -कः घृ ४, २, १.
 वृन्दारक-परमा(म-आ)नन्द-
 -न्दम् त्रिवि ७, २०.
 वृषिक- / म्रश्च ६.
 ✓वृष्(वधा.)> वर्षि, वर्षति छां २,
 ३, १; २; ४; १; ६; २, ४; ४; १, १; १;
 मैत्रि ६, ३७^१; मना २, ७९^१;
 कौ १, २; मुवा ६; पै ३, १; योशि
 १, १४६; ५, ३३^१; अय्य २;
 अच्यार्त्तः; वर्षन्ति मैत्रि ७, १-६;
 सार २८१: ७; १^१वर्षन्तु व ४३८:
 १८; ४३९: ५; १५; ४४०: २;
 १२; ४४१: १; १०; २१; ४४२:
 ९; २०; ४४३: ६; १६; ४४४:
 १०; २०; ४४५: ८; १८; ४४६:
 ७; १७; ४४७: ४; १६; ४४८: ४;
 १४; ४४९: २; १२; १९; ४५०:
 ३; ११; १७; ४५१: ३; १०; १८;
 ४५२: २; १०; १८; ४५३: २;
 ७; १३; २०; ४५४: २; १०; १६;
 २३; ४५५: ७.
 वर्षिष्यति छां ७, ११, १^१.
 वर्षयति छां २, ३, २.
 ३वर्ष^१- -र्षम् छां ५, ५-६, ३; ७,
 ४, २; वल २, २१; गी ९, १९;
 -र्षस्य छां ७, ४, २.
 वर्षे-वर्जम् कठ १.
 वर्षत्- -र्षति शि ५, ३५; -र्षन्तम्
 छां २, १५, २.

वर्षा^१- -र्षा: छां २, ५, १; १६, १;
 मैत्रि ६, २३; ७, ३; -र्षाभ्यः नाप
 ४, १५; १संन्या २, ८०; -र्षासु
 आठ ४; नाप ३, ३१; ४, १५;
 १७; २१; ७; शि ७, १२४.
 वर्षिक- -काम् १संन्या १,
 १; कथु १, १.
 वर्षि(र्षा)र्षुं- -र्षुम् २प्र ३३:
 १९^१; -र्षौ रा ४२३: २०.
 वर्षा-वर्जम् कथु ३, १.
 वृष्^१- -ष्: इ १९: १६; शि ४, १८;
 -पम् इ १९: १४.
 वृष्-गज- -जौ शि ४, २२.
 वृष्-गण^१-
 वर्षगणा^१- -णः, -णात् घृ ६,
 ५, ३.
 वृष्-ध्वज^१- -जम् ख ६.
 वृष्-भातु^१- -भुः सार २५२:
 ११; -नो: सार २५३: १८;
 २६२: ७; १०.
 वृष्भालु-कुमा(र)>र्षी- -री
 सार २६२: २२.
 वृष्भालु-गृह- -हम् सार
 २५३: ४; -हे सार २४०: ६; १;
 २७५: ४.
 वृष्भालु-नन्द-गृह- -हे
 सार २४७: २१.
 वृष्भालु-पुर- -रम् सार
 २५३: १८; -रे सार २८९: ९.
 वृष्भालुपुर-नन्दपुरा-
 (र-श्चा)धिष्ठान- -नम् सार
 २६०: ६.
 वृष्भालु-सु(त)>ता- -ता
 सार २६६: १७.
 वृष्भान्वा(नु-आ)दि- -द्वयः

सार २५०: २२.
 वृष्-(स्थ)>स्था- -स्थाम् शि
 ६, ११८.
 वृष्-स्थान- -नम् शि २, १४;
 ४, १७.
 वृष्(व)>पा-वर्षि^१- -र्वि: इ १०:
 ५; ११: ३; १८: १९.
 वृषादर्वि-कुल- -लम् इ
 १०: १.
 वृष्णा^१- -णः निर २, ३; -णस्य त्रिभा
 २, ४५; शां १, ३, ८; जाद ३, ७.
 वृष्णा(ख-आ)पान- -नयो: कुं
 १८.
 वृष्न्- -वा मना १, ९९^१; १५९^१; २,
 ५५९^१; व ४६४: २९^१.
 वृष्ल्- -लः घृ ६, ४, १३.
 वृष्ली- -ली घृ ६, ४,
 १३; इ १६: १९.
 वृष्ली-नामन- -नात्
 कलि ३; गार ४०८: १८.
 वृष्ली-पति- -ति: इ
 १६: ११; १९; -तिम् इ १७: ३.
 वृष्लीपति-भुक्-
 -क्तानि इ १६: २०.
 वृष्ला(ल-आ)मज- -जः इ
 १७: १०.
 वृष्ण- -ण्यम् व ४३७: ८९^१.
 वृष्भ- -भ मना २, १२, २९^१;
 -भः मना २, १३, २९^१; वा ४;
 शौ ५३: १६९^१; २१; -भम् मना
 २, ४९९^१; शौ ५३: २२९^१; वृ
 १, ५९^१.
 वृष्भ-ध्वज^१- -जः राठ ३, १.
 वृष्भध्वज-वन्ध- -न्धाय
 गौरु ३८.

a) व्यु. १. b) व्यु. १ = लक्ष्मी- । c) मन्त्राकारप^०, वृन्दाकारप^० इति मन्त्रा. संति. । d) तैश्चा १०, ६३, १ ।
 e) शि ५, ८४, १ । f) वर्षाभ^० इति गोसा १, १, १९ । g) = गोरुप्रवर्तक-श्रुतिविशेष- । h) = शिशियुप्रविशेष-
 [=०र्षि- इत्यन्यत्र (वृ. Pw. प्र. १)]. पृ. दीर्घः उत्तं. (वा ६, ३, १३७) । i) श्र १०, १५२, २ । j) श्र ९, १७, ४० ।
 k) = पण्ड- । l) श्र १, ९१, १६ । m) श्र २, ३, ११ । n) श्र ४, ५८, ३ । o) तैश्चा ३, १५, १ । p) श्र ३, ४७, ५ ।
 q) विशिष्ट इह श्र. (२, २३, १) धामे ।

वृषभ-याह-

वृषभवाहि(न>)नी- नी
शां १, ६; गार ४०६: १५.

वृषभा(भ-आ)कृति-विराजित-
-तम् ति ६, ३०.

वृषभा(भ-आ)रूढ,दा- -दः व
४४२: १; -दम् भ २, ३; -दा
गार ४०६: २०.

वृष्ट-ष्टम् क २, १, १४.

वृष्टि^१- -ष्टि: वृ ६, २, १०; मैत्रि ६,
२२; ३७; कौश २, २; त्रिता ३, २५;

-ष्टिम् वृ २, ५, १६; ६, २, ११;
१६; -ष्टे: वृ ६, २, १६; मैत्रि ६,
३७; -ष्टी तै ३, १०, २; छां २,
३, १, २; -ष्ट्यां श्वे ५, ११; भव
२, २४.

वृष्टया(ष्टि-आ)दिक-कम् योशि
१, १४८.

वृष्ट्या^२-

वाष्ण^१- -ष्णः वृ ४, १, ४^१.

वृष्णि^२- -ष्णिनाम् गी १०, ३७.

वाष्ण्य^३- -य गी १, ४१; ३,
३६.

√वृह

वावृहाण- णम् वापं ९: ११.

वेग- √विज्ञ् द.

वेणु^१- -णुम् महा ६, १६.

वैणव- -वम् आर ३; नाप ४,
३८; ५, १; १संन्या २, ९; १३;
पप ४१८: ३२.

वेणु-नाद- -दः हं १६

वेणुनाद-विनोद- -दाय गोपू
३२९.

वेणु-वादन-कल-रव-कलाप-
कलित- -तम् सार २६५: २०.

वेणु-वेद्य-हस्त- -स्तः राधा १, १७.

वेणु-श्रद्ध-धर- -रम् गोज ४९.

वेतस^१- -सः मना २, ४०९^१.

वेताल^१- -लः योशि ४, १६; -ला:
महा ५, ७८; मु २, २, ४०.

वेत्तू- , वेद- √विद्(ज्ञाने) द.

२-३वेद- √विद्(*वधा.) द.

वेदन- √विद्(ज्ञाने) द.

वेदना^१- -ना वरा ५, ८.

वेदयत्- √विद्(ज्ञाने) द.

वेदव्यास- √विद्(*वधा.) द.

वेदस्- √विद्(लाभे) द.

वेदि, दी^१- -दि: छां ५, १८, २; वृ ६,
४, ३; मना २, ८०९^१; ऋ २०; प्रा
३-४, १; -दिम् शि ३, ८; -दी इ
१६: १४; शि ४, १७; -दीम् शि
६, ११५; -द्या गोज ५७; -द्या:
शि २, २; -द्याम् मैत्रि ६, ३६;
शि ५, २१.

वेदि-क(>)का- -का शि १, २४.

वेदिका(का-आ)कार-

वेदिकाकार-वत् त्रिा २,
१४०.

वेदि-जन्म-हान- -नात् मुद्र ४^१.

वेदि-मध्य-

वेदिमध्य-तस(>) शि २, ३; ४.

९^१वेदि-पद्- -पत् क २, २, २; मना
२, १२, २; २, ४०; वपू ३, ६;
नाप ५, १; वपू २, ३.

वेदि-(स्थ>)स्था- -स्थाम् शि ६,
११८.

वेदितव्य-, वेदितुम्, वेदित्- √विद्
(ज्ञाने) द.

वेदिन्- √विद्(*वधा.) द.

वेद्वद्य-, वेद्व- √विष्(*वधा.) द.

वेद्य- √विद्(ज्ञाने) द.

वेद्य-, वेद्यक- √विष्(*वधा.) द.

वेन^१- -नः मना १, ३९^१; १०९^१; २संन्या
१६: ६९^१; २शिसं ३२९^१; -नम्
प ४५५: २२९^१; -नात् मना २,
१२, ३९^१.

√वेप्

वेपथु- -थुः वरा ५, ५; गी १, २९.

वेपमान- -नः गी ११, ३५.

वे(ल>)स्ता^१-

√वेल्याप्, वेलायते नाद ४६.

वेश^१-

वेश-श्रद्धार-शोभा-संराजि-

(त>)ता- -ताम् सार २२८:
२२.

वेशान्त^१- -न्ता:, -न्तान् वृ ४, ३, १०.

वेशमन्^१- -श्म छां ८, १, १; २; १४, १;
पं ३४; -श्मानि शि ७, ६०.

वेप^१- -पम् श ४; मुद्र २; वटू ३१७:
१०; -पेण नाप ५, २; मुद्र २.

वेप-सद्भावा(व-अ)भाव- -वयो:
१आ २१.

√वेष्ट, > वेष्टि, वेष्टयेत् राप् ४, ४२^१;
यो २, ३२.

वेष्टियव्यमित् श्वे ६, २०.

वेष्टन- -नम् रा ३२, १^१; महा ३, ११.

वेष्टना(न-आ)म्बर-लक्षण- -णम्
योशि १, ८१.

वेष्टयित्वा यो १, ११.

वेष्टित, ता- -तम् वृ ५, २^१; ३-६;
त्रिता ३, २३; -ता शां १, ७, ३;
-ता: योशि १, १; ३४; १योत ४.

वेष्टित-पाणि- -णिना त्रिा २,
४८.

वेष्ट्यमान- -ना: मैत्रि ७, ९.

a) ष्टिनिर्वो^१ इति सात. । b) ष्ट १, ११६, १२ । c) वृ. गपू. पृ १३९, ११ । d) =वृक्षनामविशेषजनक-
(वृ. शां. रामा.; वैतु. गोपा. =वृष्णि- इति) । e) =यदुवंश- । f) वेप १ यद्र. । g) षुवादनमीलाय इति
आन. । h) ष्ट ४, ५८, ५ । i) व्यु. १ । j) व्यु ? =पीडा- । k) तैआ १०, ६४, १ । l) वेदोज^१ इति शब्दा. ।
m) ष्ट ४, ४०, ५ । n) मा ३२, ८ । o) मा १३, ३ । p) तैआ ३, ११, १ । q) ष्ट ४, ५८, ४ । r) व्यु. ? =तट- ।
s) =वेशान्त- (वैप १ यद्र.) । t) ष्टितम् इति आन. ।

वै^० के ३, ४, ८; क १, १, १; प्र १, १;
 ४; ५; ९; १०; १२-१४; सुं १, १;
 ३; मां ९; ऐ २, २; छां १, ५;
 वृ १, १-२; कौ १, १; मै १, १.
 ✓वै(शोयणे), वायन्ति वृ १, २.
 वै-वै^० व ४३६: २२.
 वैकङ्कत- विकङ्कत-द्र.
 वैकारण्य- विकरण-द्र.
 वैकुण्ठ- विकुण्ठ-द्र.
 वैकुण्ठ- वि/कुं द.
 वैखर(रु)री^०-री योशि ३, ५; तु
 १०; नापू ५, ३४; -रीम् योशि
 ३, १०; -यां यो ३, ११.
 वैखरी-रूप(प)पा- ०पे अक्ष १५.
 वैखानस^०-सा: आश्र ३.
 रवैखानस-सम् सी २६.
 वैखानस-कवि^०-ये: सी ३२; ३३.
 वैखानस-मत-तम् सी २६.
 वैखानस-हरद्विज-त्तो नाप ३,
 १-२; १संन्या २, १.
 वैप्रराज-वि/हृ द.
 वैचजगती^० कौ १, ३.
 वैचित्र्य-विचित्र-द्र.
 वैदूर्य-विहर-द्र.
 वैष्णव-वेणु-द्र.
 वैतथ्य-वितथ-द्र.
 वैतृण्य-वितृण-द्र.
 वैदभृती-वैदभृथ-✓विद्व(बधा)द्र.
 वैदभि-विदर्भ-द्र.
 वैदल-विदल-द्र.
 वैदिक-✓विद्(बधा)द्र.
 वैदुष्य-✓विद्(ज्ञाने)द्र
 १-२वैदेह- वैदेहिन्, वैदेही-
 १विदेह-द्र.

वैद्युत-वि/द्युत् द.
 वैधर्म्य-विधर्म-द्र.
 वैनतेय-वि/नम् द.
 वैनायक-वि/नी द.
 वैभव-वि/भू द.
 वैभवाणवभेदा^० गोच ६७: १५.
 वैभनस्क-विभनस्क-द्र.
 वैयाकरण-व्या/कृ द.
 वैर^०-रम् नाप ३, ४२; सि ७, ५९.
 वैरत्याग-ग: योसू २, ३५.
 वैरिन्-रिण: लां २१४: १४;
 -रिणम् सी ३, ३७.
 वैरि-विद्वारि-चक्र-क: भव १,
 २४.
 वैरम्भ^०-म्भम् सुधा ९; १५; म्भेण
 सुवा ४.
 वैराग्य-वि/रग्य द.
 वैराज-वैराज्य-वि/राज् द.
 वैरूप-वैरूप्य-विरुप-द्र.
 वैरोचन-वि/रुच् द.
 वैलक्षण्य-विलक्षण-द्र.
 वैवश्य-विवरा-द्र.
 वैवस्थ-वि/वम्(बधा) द.
 वैशारद-वैदारथ-विशारद-द्र.
 वैशिष्ट्य-वैशेषिक-वैशेष्य-
 वि/शिष्ट द.
 वैश्य-रविश्-द्र.
 वैश्रवण-विश्रवण-द्र.
 वैश्वरूप-वैभानर-वैधामित्र-
 १विध-द्र.
 वैषम्य-विषम-द्र.
 वैष्णव-विष्णु-द्र.
 वीपट^० हं १२; सु १, १८; २, ५;
 दसा २; गद ३; व्यं २१३: १०;

व ४५६: १०; वपू २, २.
 व्य(वि-अ)ग्र-म: मै ३, २; मैत्रि ३, २;
 ६, ३०.
 व्यप्रत्य-त्वम् मैत्रि ३, ५.
 व्य(वि-अ)ङ्कार-रेनाप ५, ८; १संन्या
 २, ७३.
 व्य(वि/अ)ञ्
 व्य(वि-अ)जन^०-मेव वृजा ६, १;
 सी ३७.
 व्य(वि/अ)ञ्च्य
 व्य(वि-अ)क्त, का-कम् मैत्रि ६,
 १०; मन्त्रि १५; अव्य १; ३;
 पाशु १, १४; रुह १०; शाए: ११;
 २६; सांख १०; ११; -कस्य
 अव्य ३; -क्ता सी ५; शां १, ४;
 यो ५, २०; गोउ ६३; सर २,
 १; ७; -क्तानि मार २६२: २१;
 -क्ते अशि ४, १३.
 व्यक्त-वैतन्य-न्य: वृउ ९, ७.
 व्यक्त-वा-वाम् मैत्रि ६, १०;
 मन्त्रि १८; वृ १८.
 व्यक्त-व्य-त्वम् अव्य ३.
 व्यक्त-दर्शन-नम् वृ १४.
 व्यक्त-मध्य-व्यानि गी २, २८.
 व्यक्त-मुक्तालता-त्ता सार
 २८३: १६.
 व्यक्त-वक्त्र-वक्त्र: शां १, ६.
 व्यक्त-सु(दम)इमा-इमा
 योसू ४, १३.
 इयक्ता(क-अ)व्यक्त^०-क:
 अशि १, ४.
 इयक्ता(क-अ)व्यक्त^०-कम् धे
 १, ८; नाप ९, ७; स ३७८: ११;
 भव २, ५.

a) अग्य. वैपश् यद. । b) तु. गपू. घृ २३३८ । c) व्यु: = वाचिविरोप- । d) व्यु: = श्रुपिविरोप-
 वानप्रस्थविरोप-, तन्त्रविरोप- । e) 'तः इति निपा. । f) निपा. (तु. 'वै च जगानि' इति आन. (तु. शंदा.),
 'वै च जगती' इति अग्या. (तु. उग्र.), 'वैराजगानि' इति शां ३, ३ (तु. वैपद यस्था., मे.) च। वैराजनिक्- > कानि
 इति शोध: द. । g) वा: 'वैभव-> वाप' इति च 'भव-भे(द->)दा-> दा: (भव. प्र३)' इति च द्विपद: शोध:
 द. । h) वैपश् यद. । i) व्यु: = वाचिविरोप- । j) व्यु: = अव्य. । k) अ^० इति सात. । l) अ^० इति आन. ।
 m) स्यात्त्व^० इति अग्या. । n) कस. । o) दस. ।

व्यक्ताव्यक्त-कारण-परण-
समप्रावयव-मुख-वर्ण-भेदा-
(द-अ)भेद-रूप(प>)पा- -पा
सी ३४.

व्यक्ताव्यक्त-सिद्ध-गिरः सर
२, ८.

व्यक्ताव्यक्त-ज्ञ-विज्ञान-
-नात् सांका २.

व्यक्ताव्यक्त-पर-रम् २शिसं
१२.

व्यक्ती/भू

व्यक्ती-भू(त>)ता- -ता २प्र
३५: १.

व्य(वि-अ)क्ति-कयःगी८, १८;-क्तिः
त्रिता २, १; -क्तिम् गी ७, २४;
१०, १४; -क्तीनाम् गी ६२^b.

व्यक्ति-भेद-दः सांस् ३, १०.

व्य(वि-अ)ङ्ज्, >ञि, व्यज्यते योसि
३, ४; अव्य ३.

व्यञ्जयेत् च् १८.

व्य(वि-अ)ज्यमान(न>)ना- -ना सर
२, ६.

१व्य(वि-अ)ञ्जना- -नम् रार ५, ४;
२प्र ३४: १९; -नैः रार ५, ५.

२व्य(वि-अ)ञ्जना- -

व्यञ्जन-सिद्धि- -द्धिम् त्रिता ३,
३२.

व्य(जक>)ञ्जिका- -का नृउ ९, ४.

व्य(वि-अ)ति/त्/त्तर, व्यति-
तरिष्यति गी २, ५२.

व्य(वि-अ)ति/पत्

व्य(वि-अ)ति>ती-पात- -ते इ
१९: २.

व्य(वि-अ)ति/रिच्

व्यति-रिक्त- -क्तः अशि १, ३; नाप
४, ३८; ७; महा ५, १०; अशि

१, ३; तुअ १६; -क्तम् र्क ३;
महा ५, १८०; त्रिता ४, २०.

व्यति-रेक- -कः मसू २, ३, २६; ३,
३, ५४.

व्यतिरेका(क-अ)नपरिधति-
-तेः मसू २, २, ४.

व्य(वि-अ)ति/प(<स)ङ्ज्, व्यति-
पजति नृप २, ४.

व्यति-पक्त, क्त- -क्तः अशि ४, ५;
नृप २, १०^१; वट्ट ३१५: २१;

-क्ताः, -क्तानि नृप २, ४.

व्य(वि-अ)ति/प(<सं)/द्द्, व्यतिप-
द्वेह्व छां ७, १५, ३.

व्य(वि-अ)ति/हृ

व्यति-हार- -रः मसू ३, ३, ३७.

व्य(वि-अ)ती[ति/इ(गती)]
व्यती(ति-इ)त, ता- -तः सार २४२:

११; -तस्य त्रयि ११; -ताः
सार २४२: ४; -तानि गी ४, ५;

-तायाम् व ४५९: ५.

व्यथ, >व्यथि, व्यथते वृ१, ५, २०;
२१; ३, ९, २६; ४, २, ४; ४, २२;

५, १५; १योत ५६; व्यथन्ति
गी १४, २.

व्यथिष्ठाः कौ २, ११; गी ११, ३४.
व्यथयन्ति गी २, १५.

व्यथमान- -नः मै २, २०.

व्य(थ>)था- -था गी ११, ४९.

व्यथ् व्यथि द्र.
व्य(वि-अ)न्(प्राणने)
व्या(वि-अ)न- -नः प्र३, ६; ८; ४;
३; तै १, ५, ३; २, १; ७; १; छां
१, ३, ३; ३, १३, २; ५, २०, २;
वृ १, ५, ३; २, १, ०; १, २६; १;
१४, ३; मै २, ६; ७; ५, ५; मैत्रि २,
६; ६; ५; ३३; अना ३६; २८;
५था ५६; त्रिमा २, ७७; ८३;

योच् २४; शां १, ४; जाद ४,
२३; २८; ३२; प्रा ४, १; गा ५;

-नम् छां १, ३, ३; ५; मना २,
७०^१; सुषा ९; १^५; व्या ९६;

-नस्य मैत्रि २, ६; -नाय छां ५,
२०, ११^१; मैत्रि ६, ९; मना २,
६९^१; प्रा १, ६; -ने छां ५, २०,

२; वृ ३, ९, २६; मना २, ६९^१;
७०^१; प्रा १, ६; -नेन वृ ३, ४,
१; सुषा ४.

व्यान-कर्मन्- -र्मं शां १, ४.

व्यान-योग- -गेन त्रिमा १, ९.

व्यान-वायु- -युना त्रिमा २, ८५.

व्यान-समानो(न-उ)दाना-
(न-अ)पान-प्राण- -पानः सू १५^१.

व्याना(न-अ)व्य- -व्यस्य
जाद ४, ३३^१.

व्याना(न-अ)त्मन्- -त्मने गी ७
६४.

व्यानो(न-उ)दान- -नौ योच् २२.

व्य(वि-अ)नु/नव् > नादि
व्यनु-नादयत् -यन् गी १, १९.

व्य(वि-अ)श्च- -श्चे वृ ५, १२, १.

व्य(वि-अ)प/गम्
व्यप-गत-

व्यपगत-कलना-कलङ्क-
शुद्ध- -द्धः महा २, ७७.

व्य(वि-अ)प/दिश्, व्यपदिश्यते मसू
२, ४, १२.

व्यप-दिष्ट- -ष्टम् वृ ३, ४, २.

व्यप-देश- -शात् मसू २, ३, ३६.

व्य(वि-अ)पा(प-अ)/धि
व्यपा-धिस गी ९, ३२.

व्य(वि-अ)पे[प/इ(गती)]
व्यपे(प-इ)त-
व्यपेत्-भी- -भीः गी ११, ४९.

a) पप.>पस.>पुस. । b) क्तानाम् इति ध्यान. । c) पा ६, ४, २५ । d) ऽन्तिवि० इति निशा. अख्या. च
पा.१ बनि. शोधः द्र. । e) व्यय० इति मैत्रि २, २ । f) तैश्चा १०, ३६, १ । g) ना २२, २३ । h) तैश्चा १०, ३३, १ ।
i) तैश्चा १०, ३३, १ । j) 'व्यानः समानोदानोऽपानः प्राणः' इति पा.१ यनि. शोधः द्र. [एवं यक. गप्. (४७४, १८०,
५६०)] 'अपानः', 'उदानः', 'प्राणः' इत्यत्र सरय. शोधः कर्तव्यः । k) निशा.१ नागाल्य० इति शोधः द्र. (तु.अख्या.)

व्य(वि-अ)पो(प/ऊ)ह्, (यती) व्यपो-
हति रुजा २, ५; ४५.

व्यपो(प-ऊ)ह् तै १, ६, १; कै १, १;
ह १; वि १; स ३७९: ४.

व्य(वि-अ)अ-अ- वि ५, ३५.

व्य(वि/अ)य्

व्य(वि-अ)यमान- -नः मैप्रि २, २०.

व्य(वि-अ)र्थे, र्था- -र्थे: नाप ५, १; १ संन्या
२, ५६; -र्थम् महा ३, १८; -र्था
वि ८.

व्य(वि-अ)घ/च्छिद्, व्यवरुडेसी: तै
१, ११, १.

व्यवच्छिद्यते सांय ५, ४३.

व्य(वि-अ)घ/धा

व्यव-धान- -नाद् साका ७; -ने नाप
६, १

व्यवधान-वधा- -नात् नाप ६, १

व्य(वि-अ)घ/घद्, व्यववदति छां ४,
१६, ३; ४.

व्य(वि-अ)घ/स्रो, > सा

व्यव-साय- -यः गी १०, ३६; १८,
५९.

व्यवसाया(य-आत्मक) > कि-
का- -का गी २, ४१; ४४.

व्यव-सित- -तः गी ९, ३०; -ता:
गी १, ४५

व्य(वि-अ)घ/स्था, > तिष्ठ्, व्यव-
तिष्ठते सांका ४२.

व्यव-स्था- -स्था गौ ४, १३; साम्
१, २९; ५, १२५; -स्थाम् धे १,
१; गर्भं २०.

व्यवस्था-तस(>) सांय ६, ४५.

व्यव-स्थान- -नम् भव ३, २२.

व्यव-स्थित, ता- -तः गौ १, २;
मना २, १३, २९; त्रवि १२; तै
३, १९; नाद ४; ५वा ८०; त्रवि
७; ३८; त्रिवा २, ८१; तार ५,

२; वा २४९; महा १, १९;
त्रिता ५, १२; जाद ६, १६१; कृ
१६; च२१: ५९; पिष्ठ; नाद १,
२०९; १म ३१: १२; तारि, १९;
४, ५२; ६, ३५; कालि ४०३:
६९; भव २, २९; अवि १२; -तम्
मैप्रि ६, ३०; त्रवि ६४; त्रिवि ५,
१२; पित्र ६, ७; -ता वा २२९;
महा १, १९; जाद ४, २३; गोच
६६: २३; गार ४०६: २१; -ता:
त्रवि ६३; वि १२; -तात् गी २, १३;
गी १, २०; -साम् कालि ४०३:
३; -ती गी ३, ३४.

व्य(वि-अ)घ/ह्, व्यवहरति पै ४, ४;
व्यवहरेत् नाप ६, १.

व्यव-हरत्- -नम् वृत् ९, ८; वो ३,
२९; सु २, २, ७०.

व्यव-हार- -तः १ भय १९; २२;
-नम् महा ५, १७७; अज २, १०;
-नात् पै २, ३८; -रेण महा ४,
१२५; १२६; -रेषु महा ५, १७०.

व्यावहारिक- -कः पै २,
३६; सर ३, २०; -कम् तै २, ३५.

व्यावहारिक-रटि- -रटि:
पाशु २, १९; -रट्या पाशु २, १८.

व्यावहारिक-प्रणव- -व:
नाप ८, १.

व्यावहारिक-प्रातिभा-
सिक- -कयो: पै २, ३२.

व्यवहार-क्षम- -सः मोशिष्ठ, १०

व्यवहार-तम्(>) १ योत १९;
कह ३८.

व्यवहार-पर- -तः लि ३१०:
१५.

व्यवहार-प्रकवि(त) > ता- -ता
नि २३.

व्यवहार-वत्- -वतः वरा ४, २१.

व्यवहार-विवर्जित- -तम् जाद
१, १२.

व्यवहार-स्थ- -स्थ: १ संन्य
२, ३२.

व्यवहार(र-अ)र्थ- -र्थम् महा
४, ४५.

व्यवहार(र-अ)व्यवहार- -री
सांय १, १२०.

व्यव-हारिन्- -री महा २, ६२;
वरा ४, २७.

व्यव-हार्य- -र्यः वृत् २, १०.

व्यव-हृति- -ति: कां १, ७, २६; -ते:
१ भव २०; -ती अज ५, १०८.

व्यव-हृत्प पै २, ४४.

व्य(वि-अ)घा(व-अ)य^१- -यः बा २.

व्य(वि/अ)घ्(व्याती), > व्यधोम प्र मुं
मां मना अशि अ वृजा शां; वृषू
कां; २, १५; नाप सी घ त्रिवि
रार रापू सां पप अज वू १ आ
पाशु पव त्रिता दे भा त्र भ ग
मवा गोपू कृ ह् दता गह अवि
पहं शां; सि पित्र शां

व्यद्वुने गौ १, २७; कौ १, ७.

व्य(वि-अ)द्वुवान- -नः वा १८.

व्य(वि-अ)टि^१- -रटि: वृ ३, ३, २; कौ
१, ७; नाप ८, १; -रटिम् कौ १, ७;
-व्याम् प्रा २, १.

व्यटि-कारण-शरीर- -रम् पै २,
२९.

व्यटि-देह- -हम् पै १, ३; २,
३५.

व्यटि-समष्टि-प्रकार- -रेण
नाप ८, १.

व्यटि-समष्टया(टि-आ)त्मक-
रथुल-शरीर- -राणि पै २, ४.
व्यटि-धुस्म-शरीर- -रम् पै २,
२७.

a) व्यथ इति मै २, २; सात. । b) एथानि इति आन. । c) तैआ १०, ११, २ । d) अध्वय^०
इति आन. । e) एतम् इति अज्या. संटि. । f) वल. [नविगतोऽवायोऽस्य (वैतु). बाटी. भावे <व्य(वि-अ)वे(व/इ)
इति] । g) आ १, ८९, ८ । h) =विभेद-, व्यकि- । i) एव्यम् इति अज्या. ।

३व्या(वि-अ)ष्टि^{१०} - -ष्टिः, -ष्टेः वृ
 २,६,३; ४,६,३.
 व्या(वि/अ)स्(क्षेपणे)
 व्य(वि-अ)सन - -नम् नाप ६,७.
 व्यसनौ(न-ओ)घ-हन्तृ - -न्तृ
 पा ७,१.
 व्या(वि-आ)√कुच्
 व्या-कोच - -चम् त्रिधा २, १००.
 व्या(वि-आ)कुल-
 व्याकुलित-
 व्याकुलित-मनस् - -नसोः गर्भे ३.
 व्या(वि-आ)√कु, व्याकुले मैत्रि ६,३;
 व्याकरोति ऐ ५,१; शु ३,१; ते
 ५,८६; व्याकरवाणि छां ६,३,२;
 व्याकरोत् छां ६,३,३.
 व्याक्रियते वृ १,४,७; त्रिता १,
 ४६; व्याक्रियत वृ १,४,७.
 व्या-करण^{११} - -गः (ऽण्प्र^{११}) गार
 ४०६ : ८; -णम् सुं १,५; सुवा
 २; सीर ७; र्ह २९; २ प्र ३३: ७;
 ३६ : १.
 वैयाकरण - -गः २ प्र ३५: ८.
 व्याकरण-ज्यौतिषा(प-आ)-
 दि-शास्त्र - -न्नागि सं ७.
 व्या-कृत - -त्तस्य वृत्ता ३, १२.
 व्या(वि-आ)√ख्या, व्याख्यास्ये ध्या
 ९३, १; दत्ता १, ३; ६; ७;
 व्याख्यास्यामि वृ २,४,४; ४,५,
 ५; व्याख्यास्यामः तै १, २-३, १;
 हं ४; कौ ३, ४; शु ३, १; अता
 १; निर्वा २९७ : १; सुत्र १, १;
 महा १, १; १ संख्या १, १; सू १;
 त्रिता १, १३; २४; २, ७; ३, १७;
 दे १; मवा १; प्रा १, १; आच १;
 आर्ष ८: १; चा १; २ प्र ३४: १३;
 ३५: ५; तुल ७०: १; ना ३३, १८;
 गृ १; गार ४०५ : ४; रा ४२: ३;
 ८; वृ १, १.
 व्या-ख्या^{११} - -त्यया अक्षि ११;

-ख्या मैत्रि ६, १०; -ख्याम् नाप
 ५, २२.
 व्याख्या(ख्या-अ)ध्ययन-
 संसद् - -सदि शि ७, ६६.
 व्याख्या-पीठ - -ठे द ८.
 व्या-ख्यात, ता - -तः व्रस् २, ३, ८;
 -तम् गौ ३, २६; मैत्रि ६, १०;
 व्रवि ४; त्रिता १, २६; २, ४७; ४,
 १; १४; दत्ता १, २; १ प्र ३१: ६;
 नापू ३, १८; वस् १, ४, १७; -ता
 मै २, ३; २ प्र ३६: १; ३; योस्
 १, ४४; -ताः तै १, ३, ४; गौ ३,
 ११; योस् ३, १३; व्रस् १, ४,
 २८; २, १, १२.
 व्या-ख्यान^{११} - -नम् त्रिता १, २८;
 -नानि वृ २, ४, १०; ४, १, २; ५,
 ११; मैत्रि ६, ३२; सुवा २; -ने
 शि ७, ७.
 व्याख्यान-निरत - -तः राष्ट्र ४,
 ३१.
 व्याख्यान-पर - -रः नाप ३, ७३.
 व्याख्यान-योग - -गः नाप ४, ५.
 व्या(वि-आ)√घ्रा
 १ व्या-घ्रा^{११} - -घ्राः छां ६, ९, ३; १०,
 २; १ योत ५९; ११०: योच्
 ११८; शां १, ७, ६.
 २ व्याघ्रा^{१०} -
 व्याघ्र-पा(द)> दृ^{१०} -
 वैयाघ्रपदा^{११} - -० छां ५,
 १४, १; १६, १; -घाय छां ५, ३, २.
 वैयाघ्रपदी -
 वैयाघ्रपदी-बुध -
 -त्रः, -त्रात् वृ ६, ५, १.
 व्याघ्र-चर्मा(र्म-अ)म्बर - -घर -
 -रम् म १, १.
 व्याघ्र-चर्मा(र्म-आ)सन - -ने
 रार ४, ५.
 व्याघ्र-खग्-भाट(त)> ता -
 -ता तारा ८३ : १९.

व्याघ्र-बुद्धि - -द्धया अध्या ५४.
 व्याघ्र-मुख - -०ख लां २१६ :
 १४.
 व्या(वि-आ)√चक्ष्, व्याचष्टे जा १; वृष
 १, १५; राउ १, १; ता १, १; नापू
 १, २; १५; २, १; ४, १; व्या-
 चक्षते त्रिता १, २७; ३०; ७५;
 १६५; २, १२; १५; ३४; व्या-
 चक्षताम् १ अव १३; व्याचक्ष्व वृ
 ३, ४, १; २; ५, १; वृउ १, १; त्रिता
 २, ३; पिप २-४, १; ६, १; २.
 व्याचक्षिरे के १, ३.
 व्या-चक्षण - -णस्य वृ २, ४, ४; ४,
 ५, ५.
 व्या(वि-आ)√दा(दाने), व्याददाति छां
 १, २, ९.
 व्या-त्त - -त्तम् वृ १, १, १; ६, २, १२.
 व्यात्ता(त-आ)नन - -नम् गौ
 १११, २४.
 व्या(वि-आ)√धा
 व्या-धि^{११} - -धयः शां १, ७, ४५;
 योशि १, ३५; ५७; अक्षि २३; -धिः
 भव १, १४; -धिना छां ४, १०,
 ३; -धिमिः छां ४, १०, ३; शां
 १, ७, ४९; योशि १, २८; जाद
 ६, २७; २८; भव १, ४; ४, १७;
 -धिमू वरा २, ७९; व ४५६ :
 १३; -धीन् दत्ता २.
 व्याधित - -त्तः भव ४, ३.
 व्याधि-पाप - -पानाम् त्रिधा २,
 १०६.
 व्याधि-विनाशि(रु)> नी - -नी
 योच् ६६.
 व्याधि-स्थान-संशय-प्रमादा-
 (दं-आ)लस्या(स्य-अ)विरति-
 भ्रान्तिदृशाना(न-अ)लब्धभूमि-
 कर्त्वा(त्-अ)नवस्थितत्व -
 -त्वानि योस् १, ३०.
 व्याधि-स्थ - -स्थः शां १, ७, ४८.

a) पा. अर्थः १ = अण्विधिशेष - । b) पा. १ यनि. शोधः द. । c) = अण्विधिशेष - । d) = गोत्रप्रवर्तक-अण्विधिशेष - ।

व्या-हित- -तः वृ ५, ११, १
 व्या(वि-आ)/वृ, व्याप्तुनीते पा७, २१.
 व्या(वि-आ)/वृ(प्राणने), व्यानिति^१
 वृ ३, ४, १.
 व्यान- व्यन् द.
 व्या(वि-आ)वृ, >पि, व्याप्तुते त्रिता
 ४, २०; व्याप्नोति अशि ४, ५; अ
 २; वृपृ २, १०; शां १, ४; त्रिता
 १, १८; ४, १०; ३७; वट्ट ३११५:
 २०; गु ६९.
 व्याप्यते वृपृ २, १०; त्रिता १, २१.
 व्यापयते वृपृ २, १०; व्यापयति
 वृपृ २, १०; अ २; व्यापयेत् ऋषि
 ४३; गुणो ४२१: ३; गो १७.
 व्या(वि-आ)पक- -क अक्ष ५; -क:
 क २, १, ८; अशि ६, १२; ऋषि
 १०३; नापृ १, ११; वट्ट ३१७:
 १८; १९; -कम् ससा १, ३४;
 नाद १७; योशि १, १७; गोउ
 ४१; हंषो १७.
 व्यापक-ता- -तया सार २१९:
 ४; २८२: १८.
 व्यापक-त्रय- -यम् व ४२६:
 ४; ५.
 व्यापक-त्व- -त्वम् चकद; नाम्
 ५, ६९; -त्वे सांख्य ६, ५५.
 व्यापक-शरीर- -राणाम् त्रिभि
 २, १२.
 व्या(वि-आ)पन- -नात् अ २.
 व्या(वि-आ)पयत्- -यत्, आं १, ४.
 व्या(वि-आ)पित्- -पितः सांख्य १,
 १२; भी अ २.
 व्यापिनी- -नी सर २, ६; गार
 ४०७: १९.
 व्या(वि-आ)प्त- -प्तः वृउ २, ११;

व्यापो १४; -सम् श्रे ४, १०; हं
 ७; अशि ६, ११; वृपृ ४, ८; ते
 १, २३; राउ ४, ३६; शां १,
 ४; योशि १, ३०; १६६; ५, २;
 त्रिता ३, १९; ४, १६; ३३; ए ३;
 म ४८: ५; २शिमं ९; शि ७,
 १३७; गु ५५; वच ३, ४३; ५७;
 गो ११, २०; सागि त्रिता ४, ३६.
 व्याप्त-तम- -मः वृउ ५, ११.
 व्याप्ता(वि-आ)सिल-लोक-
 -कम् वउ ४, ३१.
 व्या(वि-आ)सि- -सिः मुद्र १, २;
 सांख्य ५, २९; -सेः ऋष ३, ३, ९.
 व्या(वि-आ)प्तुवत्- -वतः त्रिता ४,
 २०.
 व्या(वि-आ)प्य हं ५; मना २, १३,
 २६; अना ३६; ऋषि ११; धा
 २४; त्रिभि १, ९, ७, १७; मुद्र २,
 ११; २, १६; २, ३७; अल्प २; योशि,
 ३१; जाव ४, २९; व ८; १३३१:
 २०; सार २१९: ४; २९०: १;
 वउ ३, १८; ३५; ६१; गो १०, १६.
 व्या(वि-आ)प्य-
 व्याप्य-व्यापक-
 व्याप्यव्यापक-ता- -ता
 योशि ४, ४.
 व्याप्यव्याप्य- -प्यम् भव
 ३, ४.
 व्या(वि-आ)प्यमान- -नम् व ४५५:
 १२.
 व्या(वि-आ)/पद्, व्यापयते त्रिता
 १, ५; १२; ३६.
 व्या(वि-आ)/पृ
 व्यापार- -राः ते ६, १५; -राः नाम
 ६, १

व्यापारो(र-शो)घ- -घम् महा
 ६, ७६.
 व्या(वि-आ)/मिथ्
 व्या-मिथ- -श्रेण गो ३, २.
 व्या(वि-आ)/लिख्, व्यालिष्यते
 त्रिता १, ३९.
 व्या-लिख्य त्रिता १, ४०; गोपृ १८.
 व्यावहारिक- -व्यव/ह द.
 व्या(वि-आ)/वृ(आच्छादने)
 व्या-वृत्-
 व्यावृत्-त्व- -त्वम् मै ३, ५!
 मैत्रि ३, ५.
 व्या(वि-आ)/वृत्, >वर्ति, व्यावर्तते
 वृ १, ५, २; व्यावर्तते मै ५, १; मैत्रि
 ६, १; व्यावर्तते त्रिता ३, १८.
 व्यावर्तयेत् पदं ४!
 व्या-वर्त(न>)ना- -ना छां ५, ३, २.
 व्या-वृत्- -वृत् क ३२; -चालि
 क ३३.
 व्यावृत्(वि-उ)भय-रूप- -पः
 सांख्य १, १६०.
 व्या-वृत्ति- -व्या सांख्य ६, ३०.
 व्या-वृत्त १ शोत ११७.
 व्यास- -सः वृ १३; सु १, १; ३,
 २२; महा २, १८; ह ९; २ प्र ३७:
 ३; गो १०, १३; ३७; -सम् २४
 २; -साय ह ९; -सेन शु ३, १६;
 महा २, १६.
 व्यास-मुद्र- -श्रय महा २, २६.
 व्यास-प्रसाद- -दात् गो १८, ७५.
 व्यास-वचन- -नम् शु १, ७.
 व्यास-सुख- -तः महा २, ११.
 व्यासवधध्वचिदलेहरयः^१ कृपु १९.
 व्या-हरत्- -नात्. द.
 व्या(वि-आ)/ह, व्याहरन्ति सर २, ८;

१) व्याप्तुं इति पा. १ यनि. शोषः द. । b) वृ. गपू वृ ७३६ । c) 'व्याप्य' इति ऋष्या. । d) 'रीति' इति अश्या. मंदि. । e) तैआ १०, ११, १ । f) 'वृष' इति आन. । g) पा. १ व्याप्याऽव्या' इति शोषः द. । h) आलि' इति निमा. 'व्यासवध' इति आन. । i) व्याप्तुं इति निसा. १ यनि. शोषः द. (वृ. अश्या.) । j) 'व्याप्य वर्तन्ते' इति अश्या. । k) 'व्यावर्तते' इति आन. १ यनि. शोषः द. (वृ. अश्या.); वैतु. निमा. 'व्यावर्तन्ते' इति) । l) पा. वा. च ! ।

व्याहरेत् ना ३; नाप ६, १; भ
२, ४; दत्ता २^१; व्याहरेत् वृ १,
४, १.
व्या-हरेत्- -रन् गी ८, १३.
व्या-हृत- -त्तम् मै ५, ६^१; मैत्रि
६, ६^१.
व्या-हृति^१- -तयः तै १, ५, १; ३; वा
१५; शा ३, १; महा १, १; २प्र
३६: ४; गोच ६६: १५; गार
४०५: ११; १२; -ति: मना २,
८०५^१; महा १, १^१; च २०: ५;
६; ७^१; २प्र ३२: १०; ३६: ३;
गार ४०५: ७; -तिभि: मै ५, २;
मैत्रि ६, २; वृजा ३, २५^१; -तिम्
२प्र ३२: ६; १३; १५; ३६: १०;
-तिषु नाप ४, ३८; पप ४१८:
२१; -ती: वृजा ३, १३; १६;
२प्र ३३: ६; गोच ६९: ११;
-तोनम् १ १४: ११; -त्या: गार
४०५: ७.
व्याहृति-प्रय- -यम् पप ४१८:
२२.
व्याहृति-शिर- -संपुटित-वेद-
गायत्री-पादचतुष्टय-सूर्या-
(यं-अ)ष्टाक्षरी-मन्त्र- -न्त्रौ
त्रिवि ७, ४४.
व्यु(वि-उद्)> च्/चर, व्युचरन्ति
वृ २, १, २०^१.
व्यु(वि/उ)च्छ्, वि' उच्छति,
! श्यौच्छन् अव्य ५.
व्यु(वि-उद्)> स्/क्रम
व्युत्-क्रम- -मेण त्रिधा २, ३८;
४०; ४४; ४६; शां १, ३, ३; जाद
३, ४.
व्युक्रमा(ग-अ)नुक्रम- -मेण
त्रिधा २, १८.

व्युत्था(वि-उद्>त्/स्था), > तिष्, >
व्युत्तिष्ठति कथु १, १.
व्युत्-थान- -ने योस् ३, ३८; -नेन
सुवा ९.
व्युत्थान-निरोध-संस्कार-
-रयो: योस् ३, ९.
व्युत्-थाय वृ ३, ५, १; ४, ४, २२;
वृड ६, ४.
व्युत्-थित- -त: नाप ४, ३८; -तस्य
अज १, २६; अध्या ३६.
व्यु(वि-उद्)>त्/पद्
व्युत्-पत्ति- -स्या सांस् ५, ४३.
व्यु(वि-उ)द्/अस्(त्वेपणे)
व्युद्-अस्य गी १८, ५१.
व्युढ- वि/वह द.
व्यु(वि/ऊ)ङ्(वहने), व्युह ई १६; वृ
५, १५, १५^१.
व्यु(वि-ऊ)ह^१-
व्युह-भेद- -दा: त्रिवि ७, २०.
व्यु(वि-ऊ)हन- -ने गर्भे १६.
व्ये(वि-आ/इ(गतौ))वि...आयन्तु तै
१, ४, २.
व्योमन्^१- -म मै ४, ३, १०; मैत्रि ६,
३४; अशि ५, २१; काला ७;
तै १, ९; ६, १७; १योत ९८; पै
४, १३; अज २, ३७; सू १३;
१आ २२^१; त्रिता ४, २०; अ १,
५; गोपू २९; वरा ३, ३; ४, २१;
आपे ७: २०; नापू १, ७; उ ११;
वड ३१७. १२; तिष्ठ १, १८; वड
३, ७; १३; ५०; ५७; -मन् तै २,
१, १; ३, ६, १; शे ४, ८५^१; मैत्रि
६, ३५; मना १, १५^१; वृजा ६,
१२५^१; लृ ४-५, १५^१; राउ
५, २१५^१; ह १६५^१; य २३५^१;
२४ ३३: १५; नाउ १, १४५^१;

गु ५३५^१; चक ३५^१; -मनि महा
२, ६; त्रिता ५, २१; -म: शि ४,
१८; -सि सं २, २, ७; मै ४, ४,
१०; मैत्रि ६, ३४; घ्या १०४;
त्रिधा २, १४२; १५२; सुद २;
शा १, ३, ११; महा ४, ९६; ५,
११९; १५२; योशि ४, १५; ५,
४३; ए ४; त्रिता ४, ३०; कर्
११; जाद ३, ११; ८, १.
व्योम-क- -कम् वृपू १, ३.
व्योम-ग- -ग: १योत ९७.
व्योम-चक्र^१- -क्रम् योरा १७; -क्रे
शां १, ७, ४२.
व्योम-ज्योतिस- -ति: अता ६.
व्योम-ज्वलने(न-इ)न्दिराकला-
बिन्दु-मेलन-रूप(प>०)पा^१-
-पा तारा ८३: ३.
व्योम-ज्वलने(न-इ)न्दिरा-शून्य-
मेलन-रूप^१- -पम् स्या ४.
व्योम-नव- -स्वम् मं १, २, ८.
व्योम-पञ्चक- -कम् मं ४, १, ५;
योच् ३.
व्योमपञ्चक-लक्षण- -णम् मं
४, १, १.
व्योम-भाग-वीक्षित- -तु: मं १,
२, ९; अता ६.
व्योम-न्ध्र- -न्ध्रै: शां १, ४.
व्योमरन्ध्र-गत- -त: प्या १०३.
व्योम-रूप-
व्योमरूपिन्- -पिण: अज ४,
५३; -पिणम् वपू २, २.
व्योम-वत् १आ ३०; वरा २, ५३;
४, २४; सांस् ६, ५९; प्रस् १,
२, ७.
व्योम-वाता(त-आ)दि-रूप-
-पम् सता ५.

a) 'व्यात्तम्' इति निगा.३ यनि. शोषः द. (तु. नाउ.) । b) गृह्. (१११०) भ० इत्यत्र यनि. शोषः कर्त्तव्यः । c) तैत्ति १०, ६४, १ । d) 'ता: इति अन्त्या । e) 'व्यैष्ट' इति निगा.३ यनि. शोषः द. । f) वा ४०, १, १६ । g) 'गमने' इति अन्त्या । h) बशा. वै ११ यद । इह = आवाश- , ह्कार-बीजाक्षर- प्रम् । i) प्र १, १६४, ३९ । j) तैत्ति १०, १, १ । k) प्र १, १६४, ४१ । l) तैत्ति ८, १, १ । m) =क्षी-बीजाक्षर- ।

व्योमन्-व्याविन्- -पि रुजा १, २२.
 व्योत-पद्यस्वर-विन्दु-मेलन-
 रूप- -पम् कालि ४०१:१^b;
 रथा ३; तारा ८३: ४.
 व्योमन्-सद्व- -सम् करे, २, २; मना
 २, १२, २; २, ४०; वृषू ३, ६; नाप
 ५, १; विता ४, २७; वपू २, ३.
 व्योमन्-मम- -मम् महा ६, ५८.
 व्योमन्-साम्ब- -म्ब: महा ६, ७.
 व्योमन्-स्थ- -स्थ: मिशा २, ४१;
 -स्थम् महा ५, ४३.
 व्योमन्-स्थात- -न्त्म् मिशा २, १४१.
 व्योमा(म-अं)श- -शा: पै २, ७; -से
 मिशा २, १४४.
 व्योमा(म-आ)कार- -रम् १योत
 ९९.
 व्योमा(म-आ)दि-
 व्योमादि-क- -कम् वरा ३, १८.
 व्योमा(म-अ)निला(ल-अ)नल-
 जला(ल-अ)श- -शानाम् मिशा
 १, ९.
 व्योमा(म-अ)न्तर- -रे ए ४; ८^d.
 व्योमा(म-अ)म्बुज- -जे योशि ६,
 ४८.
 म्रं रापू ४, ५०^f.

११; ४, ८६; की २, १५०; वृ
 २३^e; नाद १६; ३२; मवि ५९;
 नाप ४, ७; ५, १२; ६, १; १७;
 मिशा २, १६२; योशि २, १; संन्या
 २, ६०; ६१; ८९; ९४; यो १,
 १४; ४५; ४६; २, ३९; ४०; जाद
 ४, ५०; गोपू २२; इ १३: १६;
 ईश: १२; ईश: २२; ईश: १३; शि
 २, ३९; ४, ५५; ५, ४३; ६, ९५;
 १९४; ७, २८; ३७; ६८; १७;
 मव ५, २३; गो २, ५४.
 मज्ज- -जत: नाप ३, ६६; -जतो:
 छां ८, ८, ४; -जन् छां ४, १६, ३;
 ५; नाप ५, १२; अश १, ३४;
 -जन्तम् शि ७, ६.
 मज्जन्ती- -न्तीम् पा ९, ७.
 रमज्ज^b- -ज: वृ ६, ४, २३^f.
 रमज्ज^l- -जम् सार २४३: १२; -जे
 मार २४८: १४; २७९: २३.
 मज-गोप-कन्या- -न्या: सार २४८:
 १३.
 मज-ध्याना(न-आ)पत्र- -धा:
 सार २७९: १९.
 मज-न्या(यक>)यिका- -काम् सार
 २२८: २२.
 मज-परिणाह- -ह: सार २७८:
 ११.
 मज-मण्डल- -लम् मार २७३: २३;
 -के सार २२७: १५; २५४: २२;
 २५८: १७; २७४: ५; २७५:
 ९; ११.
 मजमण्डलो(ल-उ)पासक- -का:
 मार २७८: १५; २७९: २३.
 मज-लीला- -ला सार २२१: ११;
 २५०: ४; -ला: सार २६२: १;

-लाम् सार २८६: ६; -लाया:
 सार २३९: १७; -लायाम् सार
 २४०: ७; २०; २४१: ३; २४९:
 ३; २५१: ७; २६०: ३.
 मज-लोक- -क: सार २३०: १९.
 -के सार २२७: १५; २५४: २०;
 २६१: २१.
 मज-वास- -सम् सार २७८: १४;
 -से सार २८६: १.
 मज-वासि(न>)नी- -नी सार
 २५७: ६; २८९: १४.
 मज-सङ्ग-
 मजसङ्गिन्- -ङ्गिन: सार २४६:
 १०.
 मज-स्त्री- -स्त्रिय: गोउ १.
 मज-स्त्री-जन- -न: गोउ ४४^h.
 मजा(ज-अ)तिसाधन- -ने मार
 २७८: १९.
 मजा(ज-अ)विभोव-भावित-
 -साय सार २७७: १७.
 मजे, ज-ई)शरी- -री सार २२९:
 २; २६२: ५; २७४: १७; २७६:
 ७; २१; २३; २८३: १९; २८५:
 ५; २८६: ९; २८८: ३; २२;
 २८९: ११; -नीम् सार २२८:
 २१; २३; २७३: १३; २७५:
 १०; २८५: ४; २८६: २; २८९:
 ६; २९१: ४; -नी सार २७४:
 १४; २७५: १.
 यिजानाम्ⁱ अशि ४, १८.
 मज्ज^h- -ण: मै ३, ५१^m.
 मज-युक्त- -कम् रुजा १, १२.
 मज-त- ✓पूⁿ(बधा.) ३.
 मज्ज^o- -क: छां ६, ९, ३; १०, २.

a) = हं-बीजाक्षर- । b) 'स्वरां विन्दुमेलनरूपाम् इति पा.। यनि. शोध: ३. [तु. तान्त्रि. (गपू [४५७८] 'किन्दुमेलनरूपा -> -पाम्' इत्यत्र सस्थ. यनि. शोध: कर्तव्य:)] । c) य ४, ४०, ५ । d) हिमा^o इति अख्या. । e) = योजयन्प्रविशेप- । f) 'वं' इति निवा. मंदि., धान. । g) 'मज्जयुः' इति अख्या. । h) वैपरी यद्र. । i) 'वज्रः' इति निवा. । j) व्यु. ! = देसप्रविशेप- । k) 'जन्म' इति पा.। यनि. शोध: । l) निवा. ! 'प्रजानम् -> -न्म्' इति शोध: ३. (तु. धान.) । m) पा ! 'प्रमादः' इति शोध: ३. (तु. मैत्रि ३, ५) ।

वृको(क-उ)दर^१-रः गी१, १५.
 वृक्ण-क्णः वृ ३, १, २८, ४^१; ६.
 वृश्चिक^२-काः इ १९; ८; -कानाम्
 गर २३, २४; -कैः योशि १, ३३.
 वृश्चिक-दशोन-नात् इ १९; ७.
 वृश्चन-नम् मै १, ७^१; मैत्रि १, ४.
 व्रात^३-
 व्रात-पति-तये ग १^१.
 व्रात्य^४-त्यः प्र २, ११; मन्त्रि
 ११^१; चू ११; -त्यत्य १संन्या
 २, ६४; -स्वानाम् १संन्या २, ४.
 व्री^५ सार २४७ १६.
 व्रीहि^६-हयः गु ३०; -हिः वृ ५, ६,
 १; स्क ६; नाउ १, २२; -हीन् वृ
 ६, ४, १३; -हेः छां ३, १४, ३.
 व्रीहि-यव-याः छां ५, १०, ६; वृ
 ६, ३, १३; -वौ मुं २, १, ७.

श

श^१ सार २, १०३; सौ १, २; आथ
 ३९६; ३; वृ ३६; ६; हंपो १२.
 शं-कार-०र अक्ष ५
 शंयोस्(>) √शम् द.
 √शस्, शंसति छां १, ९; शंसन्ति तै
 १, ८, १; जाद २, ४; शंससि गी
 ५, १; शंससाम् राष्ट्र २, ०; शंस
 अव्य १.
 शस्यते शि २, ८.
 शंसत्-सन्तम् मन्त्रि ९; चू ९.
 शस्त-स्तम् १योत ४८; शां १, ५,

५; यो २, ४७.
 शशक्ष^१-श्राणि तै १, ८, १.
 शस्त्र-कोविद-दाः मन्त्रि ९^१; चू ९^१.
 शस्यमान-नम् मना २, १३, २४^१.
 श(स्य>)स्था-स्थया वृ ३, १,
 १०; -स्था वृ ३, १, ७; १०^१.
 √शाक्(बधा.), शकेमहि क १, ३, २.
 श^२शमिध मना १, ९; वृ ६६; ३३.
 शक्यसे गी ११, ८.
 शक्रोति कौ २, ५^१; नाप ३, २६;
 गी ५, २३; शकनुवते आपो ७; ७;
 शक्रोधि गी १२, ९; शक्रोमि अव्य
 ३; कजा १, १; गी १, ३०; शकनुमः
 नृउ २, १९; अशक्रोत् ऐ ३,
 ३-९; शकनुयात् वृ २, ४, ७-९;
 छ ५, ८-१०; कौ ३, २; शकनुयुः
 यो २, १०.
 शशाकके ३, ६; १०; शोकुः पै १,
 २८; शक्षयसि अव्य ३, शक्षयामः
 वृ ६, १, १३; अशकत् क २, ३,
 ४; मैत्रि २, ६^१; अव्य ४; अशकत
 छां १, १, ८-११; हृ ६, १, ८-१२;
 अशकम् के ३, ६; १०; छां ५, ३, ५.
 शक्यते मै छ, ४, ९; मैत्रि ६, ३४;
 सशो १, ४२; तै १, २१; श ८^१; १;
 पै २, ५३; अक्ष ४, ९०; जाद ६,
 ५; सु २, २, ४३; भव ३, ७; ३१;
 शक्यन्ते त्रिशा २, ७६.
 शक्त, क्त-क्तः १योत ४२; -क्तस्य
 सांम् १, ११७; मांका ९; -क्ता

१संन्या २, २९.
 शक्ति^३-क्तयः राष्ट्र २, ३; १संन्या
 २, २६; भा ४; १०; १२; कजा
 २, ११; पं १; सार २३९; ५;
 गार ४०६; ११; -क्तिः श्वे ६, ८;
 हं १०; शृजा २, ७; ९; ३; १; काला
 ४; शु १, १८; २, ५^१; ध्या ८८;
 १०४^१; नाप ८, १; योचू ६२;
 ७२; सार २, २०; ४२; ५२; ६१;
 ८२; ९९; शां १, ४; ७, ३, ७; महादि,
 ६२; योशि १, १६९; ३, २, ५, ६;
 ६, १८; ४८; ४९; ५५; सू ३; त्रिता
 १, २०; ४२; ४, ३४; भां २; यो
 १, ७; ८२; ८६; ३, ७; पं २; त्रि
 १४^१; वरा ५, ५१; हृ ६; दशा
 १, ४-६; ३; सौ १, १; ३, १; सार
 १, ४; २, २; ३, १९; २२; व ६;
 तु ९; सूता १, ३०^१; तुल ७०;
 २; नापू ४, १७; लां २१३; ३;
 कृपु २२; लि ३१०; १४; आथ
 ३९४; ४^१; ८^१; काम ३; १४;
 २२; कालि ४०३; १२; गु ६७;
 ८१; व ४२६; ३; ४२७; ९;
 ४३६; १; ४५९; १७; ४६३;
 १७; तारा ८३; १४; वृ ३, ५३;
 भव १, १३; २, १४; ४५; -क्तिभिः
 त्रिता ४, ३०; -क्तिम् वृजा ४, १९;
 ६, ७; वृपू ३, १; २^१; त्रिवि ७,
 ४८; राष्ट्र ५, २; शां १, ७, १८;
 महा ४, १००; योशि ३, १०; ६,
 १९; त्रिता १, २०^१; ३९; ६२^१;

a) =कोटविशेष-, राशिविशेष-। b) 'स्थानम्' इति निताः? यनि. शोधः द्र. (तु. नाउ.)। c) वैपरी यद.। d) तु. गण. ५५८२१। e) =बीजमन्त्रविशेष-। f) =स्तोत्र-। g) शां इति निताः? (तु. ज. C.) यनि. शोधः द्र.। h) शां इति आन. संदि.। i) श्र ४, ५८, २। j) श्र ८, ११, १३। k) 'अविशाल' इति मै २, ६। l) केनाप्यशं इति निगा. अथ्या. च पा. १ केनाथ शं इति वा केनापि शं (तु. अथ्या. संदि.) इति वा शोधः द्र.। m) बरा. वैपरी यद.। इदं =नामार्थ-, देशविशेष-, नाडीविशेष-, बीजाक्षरविशेष-, शस्त्रविशेष-। सामर्थ्यार्थादन्यत्र धा. अर्थः। n) पा. १ 'सुपुमन्-> -सि' इति शोधः द्र. [एतदनु गण. (५५९१) 'महाराज-> -मधेय' इत्यत्र सस्य. ऋ ३ इति तांथः कर्तव्यः]। o) गण. (५२३६) मस्य. 'कौमारी-> -री' इत्यत्र 'कौमारी-नाक्ति-> -क्तिः' इति शोधः कर्तव्यः। p) गण. (५३०१) मस्य. 'सामुण्डा-> -ण्डा' इत्यत्र 'सामुण्डा-नाक्ति-> -क्तिः' इति शोधः कर्तव्यः। q) *क्तिः इति अथ्या.। r) 'ताकम्' इति अथ्या.।

योरा १८; शि १,६; चक ११;
वपू २, ३; वउ ३, ४६; किपु
२कौल ११; -कः। रा२५, ६;
-कः यो३, ४; वरा५, ५५; -सया
शे २, २१; प्या ८६; योचू ५९;
१०७; गौउ २८; -कयाम् वउ
३, ४७^०।

शाक,का- -कः यी ४२२ :
१८; १कौल ६ : २; २कौल ७;
-कम् व ५; काम११-१२; -कः।
वउ १२; सार २७३ : १२;
-कामु कालि ४०२ : ११^०; -कः
पारा १; -कैन वृजा २, १३।

शाक-सौर- -रेपु राउ
५, ४।

शक्ति-क- -कम् प्रवि ६०^०; रा२
२, ३६।

शक्तिका-

शक्तिका-द्वय-पुटि(त>)-
ता- -ताम् गुपो ४२० : ७।
शक्ति-कपाल- -लेपु लि ३१० :
१७।

शक्ति-क(र>)री- -री वृजा २, १।
शक्ति-कुण्ड- -षडे पो २३।
शक्ति-कूट- -उम् त्रिता १, ५०;
५४; ५८; काम १५; -डे आय
३९९; ७।

शक्ति-कूट-राज- -जम् त्रिता
१, ७४।

शक्ति-चक्र^१- -कम् काम २१।

शक्ति-चाल- -लः यो १, २;
-लेन प्या ८९; योचू ६३; यो १,
१८।

शक्ति-चालन- -नम् यो १, ७।

शक्ति-चालन-युक्ति-

शक्ति-चालनयुक्ति-
तस(>) योशि १, ८२।

शक्ति-तम्(>) ब्रवि ७२; योशि
५, ३८; कुं २; कठ १; शा १२;
शि ३, १; ७, ७^०; कथु २, ३;
सांघू १, १३६; सांका १५।

शक्ति-प्रप- -यम् वि २२; सिशि
३८१ : १९।

शक्ति-प्रय-यु(त>)ता- -ता
तारा ८४ : ४।

शक्ति-प्रया(य-अ)रमक- -कः
व ६।

शक्ति-प्रव- -यम् पारा १।

शक्ति-देह- -हे चक. १०।

शक्ति-द्वय- -यम् सर ३, १७।

शक्ति-द्वय-समन्वित- -तम्
पं ७।

शक्ति-पर्यय- -यात् महा २, ४।

शक्ति-प्रधान- -नम् २कौल
१०^०।

शक्ति-प्रबोध- -धेन योशि ६,
२४।

शक्ति-प्रभाव- -चात् प्या ६९;
योचू ४०।

शक्ति-बीज- -जम् त्रिता १, ६७;
काम ६।

शक्ति-भुज्- -भुक् काम २१।

शक्ति-भूत-हल्-लेखा- -खा
त्रिता १, ५९।

शक्ति-भेद- -दे सांघू २, २४।

शक्ति-मध्य- -ध्ये प्रवि ६८;
शां १, ७, १८; यो ३, ४।

शक्ति-मन्मथ-शिवशक्ति-मन्म-
थो(व-उ)वीं-माया-कामकला-
लय- -यम् त्रिता १, ७०।

शक्ति-मय- -यम् महा ५, १२८।

शक्ति-निश्चित- -तात् कठ १३।

शक्ति-युक्त- -कः काम २०;
गुपो ४२०; ३; -कम् चक १२।

शक्ति-योग- -यात् शे ४, १।

शक्ति-क्षण-संयुक्त- -कम् पं ४।

शक्ति-रुदा- -दा योरा १८^१।

शक्ति-रूप- -यः गुपो ४२० : १;
पो ७; -यम् योशि ५, १९।

शक्ति-विपर्यय- -यात् प्रपू २,
३, ३८।

शक्ति-शिव-रूप-

शक्तिशिवरूपि(न>)णी-
-णीम् त्रिता २, २०।

शक्ति-शिवावा(व-अ)द्य(ईवा^१)-
-यम् (ईशा^१) त्रिता १, ५८।

शक्ति-सेना-कल्पना- -ना रापू
१, १०।

शक्ति-सोमा(म-अ)मृत- -त्तेन
वृजा २, १६।

शक्ति-स्थान- -नम् वरा ५, ५३।

शक्ति-हृषी(र्ष-उ)पादन- -नात्
काम २२।

शक्ति-हृत्- -स्तेन व ४५३ : ४।

शक्तय(क्ति-अ)मृत-

शक्तयमृत-मय- -यः वृजा
२, १।

शक्तय(क्ति-अ)ख्य- -ख्यानि
त्रिता १, १०^०।

शक्तय(क्ति-अ)रमक- -कम्
त्रिता २, २०।

शक्तय(क्ति-अ)रम- -रमना सी
११^१; -रमा हं २१।

शक्तय(क्ति-अ)शर- -रम्
त्रिता २, २४।

शक्तयु(क्ति-उ)द्रवा(व-अ)नु-
-द्रव- -व्यायाम् सांघू १, ११।

शक्तयु(क्ति-ऊ)र्ध्व- -ध्वम् त्रिता
१, ६२।

शक्तय,क्या- -कयः क २, १२;
वृजा ७, ७, गौ ६, ३६; ११, ४८;

a) मा ११, २ । b) 'शक्त्वा' इति पा१ यनि. शोधः द । c) 'कः' इति तान्त्रि. । d) 'सत्यकम्' इति
अख्या, 'शक्तिदम्' इति अख्या. संति. । e) पा१ शक्तिः प्रधा^० इति द्विपदः शोधः द. । f) पा१ 'शक्तिर ऊर्ध्व' इति
द्विपदः शोधः द. । g) निसा. यनि. शोधः द. (तु अख्या.) । h) 'शाक्तानि' इति अख्या. । i) 'सना इति निता. ।

५३; ५४; क्यम् वृजा ६, १०; ७,
८; १योतो७; रुजा ३, १; वपं ३१२:
१७; भव १, ५३; गी ११, ४;
१८, ११; क्यशि ५, ११.
शक्य-करण- -णात् सांस् १,
११७; मांका ९.
शक- -कः ना २; त्रिवि २, १६;
मवा १५^७; नास् ५, १६; -क्रेण
सिधि ३८२: १९.
शक-कजीपिन्- -यिणाम् ह
१२: १.
शक-घ्राण- -णम् वउ ४, ३५.
शक-पुरी- -री राधा ४, ६.
शका(क-अ)ग्नि-यम-निक्रंति-
वरुण-व्यायव्य-घनदे(द-ई)दान-
प्रजापति-नागेश- -शा: पी
४२२: १२.
शक्षय- -क्षयू पा ८, ९.
शकट^{१०}- -टम् मै २, ३; मैत्रि २, ३;
अघ ३, ६; -टस्य छां ४, १, ८.
शकर- -राणि वृ ३, ९, २८, ३.
शकल^{११}-
शकल- -ल पं १; २८.
शकल्य- -ल्य वृ ३, ९, १०-१८;
-व्य: वृ ३, ९, १; १९; २६; ४, १,
७.
शकुन्- -न: मैत्रि ६, ३४; सु २९४:
५५^७.
शकुनि^{१२}- -नि: अ ६, ८, २; कौ१, २;
-निम्य: छां ५, २, १.
शाकुनिक- -क: मैत्रि ६, २६.
शाकु- -कु वृजा ३, ३४.
शक्त-, शक्ति-, शक्य- √शक द.
शकन(व>)री^{१३}- -यै: छां २, १७,
१-२.
शाकर^{१४}-
शाकर-वैवत- -ने वी १, ५; मैत्रि

७, ५.
√श(म>)ग्मा^{१५}- -ग्माम् सर २, २.
√दाङ्
दा(ङ>)ङ्गा- -ङ्गा महा २, ५८.
शङ्गा-वत्- -वत: अथा ५९.
शङ्कित- -त: राष्ट्र ४, २१.
शं-कर- √शम् द.
शं-कार- शं द.
शङ्कु^{१६}- -ङ्कुना छां २, २३, ३; -ङ्कुभि:
आपें ७: ६.
शङ्कु-कर्ण- -र्णं शि ६, १९०.
१शह^{१७}- -हः राष्ट्र ५, ४; कर् ६; -ङ्गम्
गोउ ५, ५; कृ २१; सु २९४:
१४; २९५: २; व ४२७: १२;
वउ ६, ७; गी १, १२; -ङ्गस्य वृ २,
४, ८; ४, ५, ९; -ङ्गा: गी १,
१३; -ङ्गान् गी १, १८; -ङ्गाय
त्रिवि ७, ४२; -ङ्गौ गी १,
१४.
शङ्कु-कुन्दे(न्द-इ)न्दु-वर्णा-
(र्ण-आ)भ- -भम् शि ५, ८.
शङ्कु-चक्र- -क्रम^१ क्यु २१; -का-
भ्याम् सु २९४: १०; -के राष्ट्र
५, ९.
शङ्कुचक्र-ध(र>)रा- -राम् व
४२७: १५.
शङ्कुचक्र-हस्त^१- -स्ताभ्याम् व
४५३: १७.
शङ्कुचक्रा(क-अ)ङ्कित-हस्त-
-स्त: व ४४३: १०.
शङ्कु-चक्र-गदा-पद्म-धारिन्-
-रिणम् नापु ४, २३.
शङ्कु-चक्र-गदा-धर- -राय आवो
१; नाउ २, ७.
शङ्कु-चक्र-गदा-पद्म-खड्ग-धीवल्म-
कौस्तुभ-वनमालादि-किरीट-
कुण्डल-केयूर-टारा(र-अ)द्म-

शाङ्कि(११^१)-शर-नन्दक-पद्म-
वेणु-बर्हिपिच्छ-शेषा(प-अ)-
नन्त-नाह-विष्वक्सेन-ब्रह्मन्-
-ह्याण: नापु ६, १०.
शङ्कु-चक्र-गदा-पद्म-वनमाला-
धर- -रस्य गोउ ३१^{११}.
शङ्कु-चक्र-गदा-पाणि- -णे वा
१०; गोच ६६: ९.
शङ्कु-चक्र-गदा(दा-अ)भय-ह-
(स्त>)स्ता- -स्ता गार ४०६:
२२.
शङ्कु-चक्र-गदा-शाङ्ग-रक्षित(त>)-
ता- -ताम् गोउ २७.
शङ्कु-चक्र-महामुद्रा-पुस्तका-
(क-अ)व्य- -व्यम् ह ६.
शङ्कु-चक्र-शाङ्ग-पद्म-गदा(दा-अ)-
न्वित- -तम् गोउ ४७.
शङ्कु-चक्रो(क-ऊ)ध्वेषुण्डा-
(रव-आ)दि-धारण- -णम्
सु २९४: ७
शह च्यूं- -णम् शि ६, ४८.
शह-तुल्य-फल- -लम् शि ६,
२६३.
शह-तौय- -येन वृजा ४, ८.
शह-कुन्दुभि-नाद- -दम् नाद
५२.
शह-धम- -धमस्य वृ २, ४, ८; ४,
५, ९.
शह-ध्वनि-निम- -भ: जाद ६,
३६.
शह-नाद- -द: हं १६.
शङ्कनादा(द-आ)दि- -दिभि:
ध्या १०२.
शङ्कु-नामक- -क: ता २, ३.
शङ्कु-निधि^{१८}- -धये त्रिवि ७, ४२.
शङ्कु-पात्र- -त्रम् शि ६, २६०.
शङ्कु-मध्य-ग- -ग: प्रवि ७.

a) विप. वा नाप. वा वैप१ यद. । b) तैशा ३, १२, ७ । c) वैप१ यद. । d) ध्यु ? = प्रथमविशेषण ।
e) अ ९, १६, १९ । f) = गीमय- । वैप१ यद. । g) °क° इति Jc. । h) अ ५, ४३, ११ । i) °ङ्गः इति आन. ।
j) ममाशरे इम. । k) वृ. ग०. ४४८२a । l) पा. इति. नोप: द. । m) °लवृत्तः इति आन. ।

शङ्ख-वर्णक-कम् घ्या २६.
 शङ्खा(क्षि-आदि-दिभिः राप्
 १,१.
 शङ्खा(क्षि-अ)रिष्टा(ष्ट-अ)भीति-ह-
 (स्त<)स्ता-स्ताम् व ४२६ः
 १२.
 शङ्खा(क्षि-अ)र्ध-धेन शि ६, २६३.
 शङ्खि(व<)नी^{१०}-नी घ्या ५३;
 शोच् १७; २०; शां १, ४^१; भा
 १४; जाद ४, ८; १७; २२; वपा
 ५, २६; व ४३५; १२५^{१०}; न्याः
 जाद ४, २८.
 शङ्खिनी-विवर-रे त्रिधा २,
 ११८.
 शङ्खिन्पा(नी-आत्व<)त्वा-
 त्वा शोशि ५, ३५.
 शङ्ख^{१०}-ङ्खः ग ५.
 शङ्ख-क-कः ग १९.
 शङ्खक-वृत्-तः ग १९.
 शङ्खि(उ<)घ्रा^{१०}-घ्रा व ४३७ः
 १९५^{१०}.
 शङ्खि(उ<)ची^{१०}-चीभिः मना २,
 ४८५^{१०}.
 शङ्खि(उ<)ची^{१०}-
 शची-वति-ति मना २, ४५५^{१०}.
 शची-योग-नाम् रा ४२४ः
 १७
 शङ्ख^{१०}-
 शाब्ध^{१०}-
 शाब्धाव(व<)नी^{१०}-नी सु
 १, १, ३९.
 √शङ्ख(°वधा.)
 शङ-ङः अल २, २९; गो १८,
 २८; आष श ३३; शा ३३५^{१०}.

सु १, १, ५१५^{१०}; -डे अत्र २, २९.
 शङ्खिडल^{१०}-
 शङ्खिडल्य^{१०}-ल्य शां १, २, ३; ७,
 १६; १८; ३९; २, ३, १; ल्यः
 छां ३, १४, ४^१; वृ २, ९, १; ३; ४,
 ६, १; ३, ६, ५, ४; शां १, १, ४; २,
 १; ३, १^१; ल्यम् सु १, १, ३५५^{१०};
 गार ४०७ः ११; -ल्यत् वृ २,
 ६, १-३; ४, ९, १; ३, ६, ५, ४.
 शङ्खिडली-
 शङ्खिडली-पुत्र-अः, -प्रात्
 वृ ६, ५, २.
 शङ्ख^{१०}-शङ्ख ई २; क २, ३, १६; तै २,
 ८, १; २-४^१; ऐ ४, ५५^{१०}; छां ७,
 ८, १; वृ ४, ३, ३३^१; कौ १, ४^१;
 अना ३४^{१०}; वृजा ६, १; इ १ २;
 ११^{१०}; -तम्-तम् प्र ३, ६; -ता वृ
 २, ५, १९५^{१०}; ३, ९, १^१; ५^{१०};
 -चानि छां ४, २, १, २; गर्भ ५;
 -तेन मना १, ८^{१०}; ५; ६; ५^{१०}व
 ४६४ः ६; ७; सैः भ २, २३;
 २५; शिषि ३८०ः ६.
 शङ्ख-कल्प-कल्पम् वृजा ३, ३४.
 शङ्ख-कुक्ष-विद्रुम-लता-ताः सार
 २३९। ४.
 शङ्ख-कृत्यस(ः) मृ १२.
 शङ्ख-कोटि-वत्सर-काल-लः
 त्रिवि ३, ५-७.
 शङ्ख-कोटि-शिखर-रेः त्रिवि ७,
 २२.
 शङ्ख-कृत^{१०}-तो मना २, ६५^{१०}.
 शङ्ख-युग्म-णम् शि ६, ३०; २४८;
 २५, १, शैः भ २, २५.
 शङ्ख-चन्द्र-विभा(भ-आ)मन-

-नम् ग ५.
 शङ्ख-अय-अयम् शिषि ३८२ः ४.
 शङ्ख-दल-पद्य-पद्य-पद्य राधा
 २, १.
 शङ्ख-दाय^{१०}-अयम् पा ७, ४.
 शङ्ख-धा प्र १, ८; श्रे ५, ९; मै ५, ८;
 मैशि ६, ८; वृ ८, ५; अति १;
 सार २८४ः ८; भव २, ३६.
 शङ्ख-धार-रः मना २, ६७५^{१०}.
 शङ्ख-पञ्चा(अ-आ)क्ष-अयम् घ्या
 ३६.
 शङ्ख-पथ-अयम् नाप ४, १८.
 शङ्ख-पूर्व-अयम् वृजा ३.
 शङ्ख-बाहु-हुना मना १, ८; य
 ५, सु २९३ः ५.
 शङ्ख-भार्या-समेत-तस्य वृजा
 ६, १.
 शङ्ख-भियञ्ज^{१०}-पजे व ४३८ः ८.
 शङ्ख-मूल(व<)ला-ला मना १,
 ७; व ४६४ः ३.
 शङ्ख-योजना(न-आ)यत-तम्
 सार २३९ः १; १२.
 शङ्ख-रुद्र-रुद्रेण वृजा ६, ५; ७, १.
 शङ्ख-रुद्रिय-अयम् कै २, ५^१;
 -येण जा ३.
 शङ्ख(त-अ)चर्म-चर्मम् नाप ४,
 ६५^{१०}.
 शङ्ख-लक्ष-लक्षम् दे २०.
 शङ्ख-वत् वृ ३, ४, ११.
 शङ्ख-व(व<)वा^{१०}-वा^{१०} नाम ३,
 ६४.
 शङ्ख-विचक्ष(ण<)णा-णाः प्रा
 १, १५५^{१०}.
 शङ्ख-धार-रः इ १२ः १.

a) = नाडीविशेष- । b) = देवीविशेष- । c) व्युः = नगविशेष- । d) वैप १ यद. । e) श्र ४, ३१, १ ।
 f) शौ ७, ५५, १ । g) व्युः = दन्द्राणी- । h) तैत्ता ३, ७, १४, ५ । i) व्युः = गोत्रप्रवर्तक-श्रुतिविशेष- । j) = तदा-
 ल्कोपनिषद्विशेष- । k) 'अगत्याय' इति वाच २, ८ । l) श्र ४, २७, १ । m) 'पदस्यतम्' इति छान. । n) 'तस्य'
 इति पा ! यनि. शोधः द । o) श्र ६, ४६, १८ । p) काठ ३५, ६ । q) मा १३, २०; २१ । r) = विप. । s) तैत्था
 १०, ५, १ । t) उल. उप. √दा(दाने)+णः प्र. । u) तैत्थाशा १०, ६७ । v) तैत्था १०, १, ८ । w) = नक्षत्रविशेष- ।
 x) तैत्था १०, १, ७ । y) 'दी' इति छान. । z) श्र ७, १००, ३ । a') उप. = वर्ष- । b') शौ ६, ६६, १ ।

शत-शस्(>): जाद ४,५४; सार
२२२: ११; २३३:९; २३९:
१३^१; १९; २४०:९; १२; २४४:
२०; २४८: १५; २४९: १५;
२५२: १३; २५६: १८; २५८:
८; २३; २६२: १२; २६४: ६;
२६७: ३; ८; २७०: २१; २७४:
६; १७; २७५: ६; २२; २३;
२८५: २०; गी ११,५.

शत-संवरस(>)रा- -रामि: आश्र
२^१.

शत-संख्या- -सयया रा ४२४: २;
४२५: २; -ख्या महा ५,२०.

शत-सहस्र- -स्रम् ता३,९; दत्ता३;
-स्त्राणि अग्नि ७,६; राउ ५,४^१;
पै ४,२३; महा ६,८३; ता३,९.

शतसहस्र-कु(अ)आ- -आ
सार २८३: १५.

शतसहस्र-होदि-

शतसहस्रकोदि-शस(>):
सार २७७: १४.

शतसहस्र-धा सार २४८: १६.

शतसहस्र-शस(>) अक्ष १२.

शता(त-अ)क्षर(>)री- -री त्रिता
१,९.

शता(त-अ)क्षु(र)रा- -रा मना
१,७; व ४६४: ३.

शता(त-अ)धि(क)का- -कया
प्रसू ४,१७; -का: कृ १३१^१.

शता(त-अ)न्त- -न्ते यो २,६.

शता(त-अ)पर- -रान् दत्ता ३.

शता(त-अ)रुद- -रुदम् ध्या ३४०.
शता(त-अ)युस^१-
शतायु: -कल्पना- -नया सो १४.
शता(त-अ)युस^१- -युष: क. १,
१,२३.

शता(त-अ)र-चक्र- -क्रम त्रिवि ७,
१०.

शता(त-अ)र्धा(र्ध-अ)र- -रम् श्रे
१,४; नाप ९,३.

शता(त-अ)वयवा(व-अ)न्वित-
-त: तु २.

शता(त-अ)वयवो(व-उ)पेत- -त:
नाप ८,१.

शता(त-अ)हाव- -व: इ १२: १^१
शते(त-इ)पुधि- -० धे नी २, १०^१५.

शितकुवेर: ^१ आच १०.

शतकुम्भ^१-
शतकुम्भ^१-

शतकुम्भ-म(य)यी- -यीम्
शि ६,११६.

शयु- -शय: ^१व ४६१: ४; ४६४:
२१; -शवे नी ३,८; -शु: ते ४,
१९; अञ्ज ५,२०; व ४५९: ५;

पित्र ५,६; गी १६,१४; -शुभि:
जाद १,१७; -शुम् व ४५९: १७;
गी ३,४३; -श्रूणाम् कृ १८; व
४४९: ९; ४५७: १८; -श्रू मना
१,११५^१; रार २,६९; त्रिता ३,
२१; २५; वरा २,६५; व ४२८:
९; ११; १२; १४; १६; १८; २२;
४२९: १; ३; ५; ४३४: १७;
४५८: १; २०; २१; ४६०: ३^१५;
१६५^१; १७^१; गी ११,२३; -श्री
गी १२,१८.

शयु-कार्य- -यम् व ४५७: १७;
-यैषु योशि ६,६८.

शयु-क्षया(व-अ)र्थ- -यै व ४५९:
१८.

शयु-गति- -गति- -गति- -गति- -गति-
१७.

शयु-म^१- -म: राउ २,१; ता २,३;

३,४; ८; -शम् रार १,७; -शाय
रार २,१०३.

शयु-भरत- -तो रापू ४,३२.

शयु-घना(घ-अ)घस(>) रापू ४,
३३.

शयु-त्रिच-चक्र- -क्रम चक्र ८.

शयु-सिद्धा-यज- -श्रे पी ४२१: ३.

शयु-स्व- -स्वे गी ६,६.

शयु-प्राणिन्- -शिणाम् व ४४९: ७.

शयु-बुद्धि-स्त्वम्भन- -नम् व
४५७: १६.

शयु-मित्र-पुत्रा(म-आ)दि- -दि:
ते ६,१६.

शयु-मित्र-समान- -दृश- -दृक्
महा ६,६४.

शयु-मुख-स्त्वम्भन- -नम् व
४५७: १६; ह्यो ७:

शयु-वत् गी ६,६.

शयु-वत् गी ६,६.

शानि^१-

शानि-राहु-केतु(त-उ)रगरक्षो-यक्ष-
नर-विहाग-शरभे(भ-उ)मा-

(भ-आ)दि- -दय: मैत्रि ७,६.

शनैस्(>): श^१कु^१; नाद १९; ध्या ९३;
१००; १योत ३८^१; ३९; ४१;
४३; योचू ६६; शा १,४; १,७,३;
१४; महा ५,१२६; १७९; योशि
१,४०; ६,७; अञ्ज ३,४; ८; ५,
१०३; यो १, २४-२६; ३;
३५; २,३२; ३९; ४६; जाद ६,
७; -नै: नै: लु ३; २१; ध्या ९३;
१४; १योत ३७; ५२; नाप ३, ५२;
त्रिमा २, ९६; योचू ११८; त्रिवि ५,
१२; शा १, ७, ६; योशि १, १४०;
३, ९; यो १, ५, ६; २, २७; ३९;
जाद ५, ९; ६, ३३; गी ६, २५.

शानकैस(>): ^१ मैत्रि २, ८; कुं १८.

a) तैशा १०, १, ७। b) क्य: इति निमा, कया: इति अय्या, च पा.३ यनि. शोच: द.। c) इरम् इति निमा.। d) कम.। e) वन.। f) पा. विमर्गोत्तरद्वान्दरा: द.। g) मा १६, १३। h) पा.३ तत: कुं इति शोच: द.। j) व्यु.३-प्रवर्ण-। j) वैपरी यद.। k) श्र १०, ८४, ७। l) श्र ३, ४७, २। m) श्र १०, ८३, ३। n) श्र १०, ८४, २। o) १०, ८४, ३। p) व्यु.३-प्रवर्णोत्तर-। q) त. गण. ५१७३५, १, ११।

दाम्नि-धर^१ - राय व ४३७: १८.
 √ दाम् (धया), दापति वृ ६, ४, १२;
 दापे सूता १, ४२; ६, १२; दापामि
 व ४६४: १२; १४; ४^१ दापाय
 सूता २, १२; १३; अदापय वृजा
 ६, १; दापेय कुं १२; वृ ४४;
 कयु ३, ४.
 दापत् - पत: सूता २, १२४.
 दापय - धेन व ४६४: १४.
 दापमान - नम् वा ७.
 दाप - पम् वृजा ६, १; इ १९: १;
 काम १२.
 दाम्ना - फा: राह ११९.
 दाम्ना (क) > दाम्ना - फामि: द्याय २४:
 २२.
 दाम्ना (र) > दाम्ना - रीम् राय ४, ११.
 दाम्ना - लम् छां ८, १२, १; व २,
 ३१; अत् छां ८, १२, १.
 दाम्ना - द्द: वृ १, ५, ३; २, १, १०; ४,
 ७-९; ४, ५, ८-१०; मे ६, २२; २३;
 वी ३, ५; ४, १२४; नाद
 ४७७; अवि ६३; शारी १; ८;
 १४०५ २, १५; वृ ३१-३२;
 वी २, १०; १२३२: १; २४३५:
 ८; पा १, ६; सां १, १०१; ५,
 ५७; सांका ५१; म् १, ३, २८;
 ३, ४, २१; वी १, १३; ७, ८;
 द्दम् का ३, २; ७, ८; पदं
 २; अना १, २; २०; ध्या ३;
 नाप ५, १; द्दस्व वी ४, ५;
 वृजा ७, ४; ध्या ३; मं ५, १, ४;
 योरा ६, २१; म् ३, ३, ५२;
 द्दाम्: स्व ६२: १; द्दाम् म्
 १, ३, २४; २, १, ४; ३, ४; ४, १५;
 ३, १, २५; ३, ४, १; ४, २, १;
 ४, २२; द्दाम् क १, ३;

वृ २, ४, ७-९; ३, २, ६; ४, ४,
 २१; ५, ८-१०; वी १, ७; ३,
 ४^१; ६; वृजा ४; अम ४, ३७;
 वा ४, ३१; सा २३; २२ ३२:
 ३; ७; रि ७, ८०; द्दानाम् वृ
 २, ४, ११; ४, ५, १२; वृजा ४;
 १३; दे १७; द्दम् ३, ४, १७;
 द्देन वृ ३, २, ६; मैत्रि ६, २२;
 गोप १६; सार २३७: ९; द्देय्य:
 म् २, ३, ६; द्दै: वी ३, ३;
 ४, १९; वी ३, २१; मर ३, ९.
 दाम्ना - द्द: वृ २, ५, ९.
 दाम्ना - कम् म् १, १०२.
 दाम्ना - काल - लय - धेन मं २, २, ४.
 दाम्ना (म) > दाम्ना - भांम् वी १,
 १७.
 दाम्ना - गुण - ण: त्रिमा १, ९.
 दाम्ना - म्रण - णम् नाप ६, १.
 दाम्ना - जला (ल-आ) ध्या (य-आ) -
 दि - दिमि: धे २, १०; मव
 ३, २३.
 दाम्ना - जना (न-अ) युपातिन् - ती
 यो १, ९.
 दाम्ना - ध्वनि - न्या शां ३, १.
 दाम्ना - निरयत् - स्वम् सां ५, ५८.
 दाम्ना - बीज - रसो (स-उ) म् (ख) > -
 वी - वीम् महा ५, १४७.
 दाम्ना - म्रण - क्ष मैत्रि ६, २२; अवि
 १७, योरा ३, २; त्रिमा ५, १७;
 अदिमा ४, अमि १७; मी ६, ४४;
 - अणि मैत्रि ६, २२; अवि १७;
 त्रिमा ५, १७; अमि १७.
 दाम्ना - मम (य) > वी - वी वी
 ६.
 दाम्ना - म (य) > वी - वी महा ४, ९.
 दाम्ना - माया (या-आ) वृत् - त्त: अवि

१५; त्रिमा ५, १५; अमि १५.
 दाम्ना - मूल -
 दाम्ना - मूल - स्व - रमा म् २,
 १, २७.
 दाम्ना - वत् - वान् गो ६.
 दाम्ना - वादिन् - दिन: मैत्रि ६, २२;
 ते १, ४५.
 दाम्ना - विद् - विवर्जित - त्त: ते ४,
 ७६.
 दाम्ना - विवर्जित - त्त: ते १, २१.
 दाम्ना - विवर्जित - पाय म् १, २, ५.
 दाम्ना - विवर्जित (य) > वी - वी सांका
 ३४.
 दाम्ना - वय जन - वजित - त्तम् अना
 ४.
 दाम्ना - ध्वन - णम् २२ ३३: ८.
 दाम्ना - स्पर्श - शीं शारी १.
 दाम्ना - स्पर्श - स्वरूप - षाम्याम्
 महा ५, १४९.
 दाम्ना - स्पर्श (श-आ) दि - दय: मै
 ४, २; मैत्रि ४, ३; मैत्रि १, ४, ११.
 दाम्ना - स्पर्श - रस - रूप - नाय -
 वजित - त्त: रमा ३.
 दाम्ना - स्पर्श - रूप - पाणि शारी १.
 दाम्ना - स्पर्श - रूप - रस - सा: शारी १.
 दाम्ना - स्पर्श - रूप - रस - नाय -
 मना २, ६६४; सता १, १९;
 त्रिमा १, ५-६; पै २, १६; शारी
 १; वृ १७; मा २२७.
 दाम्ना - स्पर्श - रूप - रस - गन्ध -
 वजित - त्त: १मा १.
 दाम्ना - हीन - त्त: ते ५, ८.
 दाम्ना (द-आ) कर्पि (न) > वी - वी
 आय ३९५: ४.
 दाम्ना (द-आ) कर्प - द्दा - षाम्याम्
 गो ६.

a) =प्रहविशेष-। b) तैत्रा ३, ७, ६, २३। c) वैपरी यत्र। d) मा १२, ४। e) मैत्रि =सर्व(>) वी-१ (वैतु. वे. पा। 'शकरी-> शीमि:' इति शोध: इति?)। f) व्यु. १। g) 'प्रतिश्रुक्क्यायाम्' इति शांया ६, १३। h) 'छन्द:' इति अश्या.। i) सहज द्दा: इति शांआ ५, ४। j) वैतु. शंदी., नादी. अन्वयाऽऽप्रह:। k) 'सौम्या: इति निशा. इति शोध: इ. (तु अश्या.)। l) तैत्रा १०, ५५, १। m) 'शब्दादितन्मात्रा:' इति तात्रि.।

शब्दा(ब्द-अ)क्षर- -रम् त्रिचि १६;
 अचि १६.
 शब्दा(ब्द-अ)तीत- -तः अद्वै ९.
 शब्दा(ब्द-अ)दि- -दयः वरा १, ३;
 -दिभ्यः प्रस् १, २, २६; दिषु भव
 ३, २७; -दीन् ससा १, ७, ८; १०;
 गीष्ठ, २६; १८, १५; -देः अध्या ५.
 शब्दादि-भेद- -दात् प्रस् ३, ३,
 ५८.
 शब्दादि-रीति- -स्थै पा ८, १०.
 शब्दादि-विषय- -यान् अना ५५.
 शब्दादिविषय-संकरणा-
 (ल्प-आ)दि- -दीन् ससा १, १४^b.
 शब्दाद्य(दि-अ)भाव- -वे ससा
 १, ८.
 शब्दाद्य(दि-अ)र्थ-विषय-प्रह-
 ण-ज्ञान- -नम् पै २, ३५.
 शब्दा(ब्द-अ)नुमान- -नाभ्याम्
 प्रस् ३, ३, ३१.
 शब्दा(ब्द-अ)न्तर- -रात् प्रस् २,
 १, १८.
 शब्दा(ब्द-अ)र्ण- -र्णम् त्रिता ५,
 १६.
 शब्दा(ब्द-अ)र्थ- -र्थयोः सांस ५,
 ३७.
 शब्दार्थ-भावन- -नम् अक्षि
 २६०.
 शब्दा(ब्द-अ)र्थ-ज्ञान-विकल्प-
 -स्थैः योस् १, ४२.
 शब्दा(ब्द-अ)र्थ-प्रत्यय- -यानाम्
 योस् ३, १७.
 शब्दो(ब्द-उ)पलब्धि- -न्वौ गर्भ १.
 शब्दान्त रात्मनित्यः^a पा १, ६.

शम्, शाम, शामि, शाम्यति
 नाप ३, ३७; महा २, ६४; ३, ६;
 ५, ११०; अन्न ४, ७९; ५, ४५;
 शाम्येत् १अव १९.
 शशाम महा २, ७६; अन्न ३, १०.
 शमयामः मैत्रि ७, ८; शमयन्तु
 मना २, ६४^b; शमय-शमय चा
 ५; वपं ३१२: १७; व ४२९:
 १४; ४३५: १२; ४६२: २०;
 ४६५: ९; शमयेत् गौ ३, ४४.
 शमयिष्यामि वृजा ६, ५.
 शमय-शामय लां २१५: २२.
 शम्- -तै शान्^c; १, १२, १^d; २
 २५ ३३: ६^e; ३६: २३^f;
 व ४३७: १७^g; विद्या शान्^h;
 १कौल शान्ⁱ.
 शं-योस् (>: , र) म शान्^j.
 शंयोर्-वाक^k - -कः प्रा
 ३-४, १.
 शं-कर^l - -०२ योशि १-२, १; यो
 ३, १; -रः श १५; कृप १४; गौ
 १०, २३; -रम् वृपू १, १२; १योत
 ९९; राउ ३, २; रुह ६; तिसि
 ३८०: ५; -रस्य २शिसं २५;
 -राय भ १, ६; शि ६, ३१.
 शंकर- -रम् शि ५, ११.
 शंकरी^m - -० रि
 व ४३१: १६; १८; ४३२: १८;
 ४३६: १८; -री नाद १०.
 शंकरिय- -यम् ते
 ६, १०८ⁿ.
 शंकर-यल(भ>)भा- -भा
 व ४२७: १.

शं-तम, मा- -मम्^o मना २,
 २५^p; २शिसं ३१^q; -^rयया
 खे ३, ५; नी १, ८.
 शं-मुं - -भवे वृजा ४, २९; शि ६,
 १०३; -मुः मं ५, ८; मैत्रि ६, ८;
 ७, ७; अ ३; शु १, ७; पै २, १८;
 नी २, ११^s; -भुम् पं २४; हे
 १४; -०भो वृजा ६, ११; -भोः
 पं १८; शि २, २०; ६, ६; तिसि
 ३८१: १२.
 शंभव- -वः म २, २८;
 -वम् काला १०; ते १, १; वरा
 ५, ५३; जावा १८; स ३७८: ३;
 काम ११; १२; १६; २कौल ५१^t.
 शंभवी^u - -० वि
 व ४३६: १८; -वी मं १, ३, ५, २,
 १, ८^v; अता १२; योशि ६, १८;
 व ६; लि ३१०: ११; व ४२७:
 ८; -वीम् पी ४२१: २.
 शंभवी-
 दीक्षा- -क्षासु कालि ४०२: ११^w.
 शंभवी-
 दीक्षित- -तः कामे ७.
 शंभवी-मुद्रा-
 (दा-अ)म्बित- -तम् मं ३, १, २.
 शंभवी-रूप-
 -पम् लि ३१०: ११; १कौल ३, ५.
 शंभवी-
 लक्षण- -णम् मं २, १, ५.
 शंभवी-
 विग्रह- -हः लि ३११: १.
 शंभव-स्थान- -नम्
 योशि ५, १६.

a) 'याः इति आन. । b) 'पयान् सं' इति आन., 'ह्यादिध' इति अच्चा. । c) 'नाम् इति अच्चा. ।
 d) पा. १ 'राशान्तरात्माऽऽत्मनि यः' इति पदद्वयपरः शोधः ? । o) तैश्चाया १०, ६४ । f) वैप १ यद. । g) प्र १, ९०,
 ९^h । h) इत्याहतिविशेष- । i) प्र १०, ९, ४ । j) प्र ८, १८, ९ⁱ । k) लि १०, १९१, १५ । l) =देवताविशेषस्य
 विप. वा नाप. वा । m) =देवीविशेष- वा मात्राविशेष- वा । n) 'शैवमेतत्' इति अच्चा. संति. । o) वा. फि. वि. द. ।
 p) प्र १, ४३, १ । q) गा १६, २ । r) =शिव- वा बीजाक्षरविशेष- वा । s) 'सुमनाः' इति गा १६, १३ । t) पा. १
 'यः इति शोपः द. । u) =देवीविशेष- वा दिगाविशेष- वा मुद्राविशेष- वा । v) 'यान्तो भवी' इति निगा. ।
 w) 'शामभवं(श)दीक्षामुलतः इति ताप्त्रि. ।

शंसु-चन्द्र-श्री काम १३

शंसु-प्रधान-

शंसुप्रधान-स्व-स्वात्

काम ११.

शम-सः तै १, ९, ३; गौ ४, ८६;

मना २, १०९; ७८९; ७९१; ९९०;

ते ५, ७९; नाप ३, २१; ४, ११, महा

४, २; ४ ६६; गौ ६, ३; १०, ४;

१८, ४२; -सम् गौ ४, ८६; ते ५,

७८; महा १, १११; ४, ४६; अश

१, ४१; सु २, २, १७; गौ ११,

२४; -मे मना २, ७८९; ७९९;

-मेन मना २, ७९९; महा ४,

३१; इ १२; ४.

शम-दम-प्राय-सैः महा ५,

१०४.

शम-दमा(म-आ)दि-दिव्य-श-

क्षया(कि-आ)घरण-णे निर्वा

२९८; ६१.

शम-दमा(म-आ)दि-पद्-

गुण-पूर्ण-गाय अता १.

शम-दमा(म-आ)दि-संपक्ष-

-श्वः वप् २६.

शम-दमा(म-आ)दि-उ-

पेत-न्तः प्रत् ३, ४, २७.

शम-वत्-वान् महा ४, ३४;

५, ९४.

शम-शालिन्-लिनि महा ४,

३०.

शम-समा(म-आ)त्मन्-शमनि

अश ५, ११३.

शम-समा(म-आ)भास-सः

अश ५, ९३.

शम-समा(म-आ)भोग-गे

महा ४, १२२.

शमा(म-आ)दिक-कम् ते ६,

३९.

शमा(म-आ)दि-गुण-दायि-

(वु)नी-नी सर ३, ५.

शमा(म-आ)दि-पद्क-शुन्वा-

(न्य-आ)त्मन्-स्याते ४, ७२.

शमा(म-आ)दि-पद्क-

संपत्ति-सिः वरा २, ४.

शमा(म-आ)निवत-न्ताय सुं १,

२, १३.

√शाम्, शमायन्तु तै १, ४, २.

शामो(म-उ)दित-धी-धीः

अश ४, ९१.

शाम^३-नः नि ६; २०.

शामयित्-न्ता मना २, ८०९.

शामित-

शामिता(त-अ)न्त-त्रितय-यः

आवो ९.

शान्त-न्ता-०न्त अक्ष ५; न्तः

छां ३, १४, १; वृ ४, ४, २३; मै

२, ४; ५, ८; मैत्रि २, ४; ६, २८;

७, ४; ६; मैत्रि ३, २४; अ १; सुवा

९; ते २, १८; ५, ६१; अपि १०४;

नाप १; ३, ५५; ४, ३१; ६, २३;

त्रिवि १, ४; राज ५, २७; महा ४,

३२; ३३; १संन्या २, १९; ३३;

अश ३, ९; ५, ९३; अक्षि २;

जाद ५, ३; आ ५; शि १, १६;

२३; गौ १८, ५३; न्तरूप ५,

७; मां ७; शे ६, १९; गौ ३, ४७;

४, ५५; मैत्रि ६, २३; ३६; ७,

३; मना २, १०९; ववि २; पर्व

२; चुवा ६, ५; ८, ६; वृ ४, ७;

५, २०; वृ १, १२; नि १४; ते

१, १; ४, २२; ६, ३६; ७२; नाद

१८; १योत ८; नाप ८, २०;

त्रिवा २, १५५; त्रिवि ७, १७; राज

२, १५; १०३; राज ३, १; शां ३,

१; महा ४, ५५; ६०; ९१; ५,

४५; योशि १, ५; ३, २०; २१; ६,

६६; अक्ष ५, ८; २१; ५१; ६०;

६३; ६४; ६७; ११२; अक्षि २;

२६; दिता ५, २०; म १, १, २;

३; पं १५; २०; म ४८; ४; नाप

१, १७; शि ४, २९; ५, २८; ३३;

६, १९६; ७, १२८; वप् २, ९;

अवि २१; न्तस्य शि ५, १२; ६,

२०६; न्ता अक्ष ५, १०८; अक्षि

४१; शार ४०७; १०९; न्ताः

सुं १, २, ११; मना २, ७९९;

वृ ६, ४; महा ४, ३५; शि ५,

२२; सांक्ष ३८; न्त्वानाम् योशि

५, ४१; न्ताम् गु ७३; विद्या ४;

न्ताय नि १; श ३४; सुता १;

३७; ६, ६; नाउ २, ११; न्तायाम्

वृ ४, ३, ६; न्तै क १, ३, १३;

वृ ४, ३, ५-६; महा ४, १२२;

५, ७; अक्ष ५, ११३; १आ ३०;

न्तै महा ६, ४७.

शान्त-कलवा-न्ता अश २, १२.

शान्त-विद्-घन-नः अक्ष २,

११.

शान्त-चेतस-सः सु महा ४,

२९.

शान्त-तम-मः हं २१.

शान्त-न्ता-न्ता अक्ष १, २९.

शान्त-स्व-स्वम् मैत्रि ६, २९.

शान्त-धी-थियः महा ५, ६१.

शान्त-नामन्-स शि १, ९.

शान्त-मनस-नसम् नाप ४,

३७; न्ताः अक्ष ५, ४७.

शान्त-मन्तु-न्तुः पिंम १, १;

३, १, १०.

a) तैत्रा १०, ८, १। b) तैत्रा १०, ६२, १। c) पा. ३ (तु. तैत्रा १०, ६३, १) सकृत् ०मम् इति शोधः द्र.।
 d) तैत्रा १०, ६३, १। e) तैत्रा १०, ६३, १। f) ०वसुत्वाच ० इति शब्दात्। g) दमस ० इति शब्दात्. संटि.।
 h) = १यम-। i) तैत्रा १०, ६४, १। j) 'शाक्तम्' इति श्रान्त., J.C.। k) विशिष्ट इह श्रान्त. पाठे.। l) = शक्तिशोध-।
 m) 'शान्ताः' इति निशा.।

शान्त-मूल- -लम् वृ २, १०.
 शान्त-रजस्- -जसम् गी ६, २७.
 शान्त-रूप- -पः ते ३, २; -पम्
 अशि ४, ५^१; वृ ३१५: २०.
 शान्त-रूपक- -कः ते ४, ६४.
 शान्त-वासन^b- -नः अज ५, ९२.
 शान्त-संसार-कलन- -नः महा
 २, ६१.
 शान्त-संकल्प- -ल्पः क १, १, १०
 शान्त-संदेह- -हः अक्षि ३९.
 शान्त-संदेह-चौराग्न्य- -रग्न्यम्
 महा ५, ६८.
 शान्त-सम्यक्-प्रबुद्ध- -द्धानाम्
 अज ५, ११०.
 शान्त-हृदय- -यः छां ८, ८, ४;
 १, २; १०, १; ११, १, २; -यौ छां
 ८, ८, २.
 शाश्वत(न्त-आ)मन्- -मने मे
 ४, ४, १५; मैत्रि ५, १; -रमा अज
 ५, ११५.
 शाश्वत(न्त-आ)दि-लक्षणो-
 (ण-उ)क- -कः मे ६, ३१.
 शाश्वत(त-अ)शान्त-विवर्जित-
 -तः ते ५, ६८.
 शाश्वत(न्त-अ)शान्त-स्वरूपा-
 (प-आ)मन्- -रमा ते ४, ६४.
 शाश्वत(न्त-अ)शान्ता(न्त-आ)-
 दि-हीना(न-आ)मन्- -रमा
 ते ५, ५.
 शाश्वत(न्त-अ)शोप-विशेषां-
 (प-अ)दा- -दाः अक्षि ३४; वरा
 ४, १४.
 शाश्वतो(न्त-उ)दित^c- -ती योम्
 ३, १२.
 शाश्वतो(न्त-उ)दिता(त-अ)-
 वपदेव-धर्मा(मै-अ)नुपा-

तिन्- -ती योम् ३, १४.
 शाश्वित- -न्तये ऋवि १२^d; १२ ३१:
 २१; शि ६, १७०; -न्तिः क २,
 २, १३; गी ३, ४०; मना २, ७९^d;
 अ ३, ८; अशि ३, २; ५, १७;
 वृजा १, १; नाप ३, २१; ६, १;
 ८, १^e; १संन्या २, ४२^f; अथा
 २८; तु ९; नाप ५, २^f; वृ
 ३१३: २; ३१५: २; शि १, २५;
 स ३७८: १३; तारा ८३: २५;
 भव २, ४८; ४, १०; गी २, ६६;
 १२, १२; १६, २; -न्तिम् क १,
 १, ७; १७; धे ४, ११; १४; अशि
 ५, ६; ८; ऋवि १६; मना २, ६४^g;
 त्रिमा २, १५; महा ४, ८७;
 १अव ७; त्रिता ५, १६; सु १,
 २, १; २, २, ३४; सं २३; शि ४,
 ६६; तु ५७; अवि १६; गी २,
 ७०; ७१; ४, ३९; ५, १२; २९;
 ६, १५; १८, ६२; -न्तो पप
 ४१९: ३०; -न्त्या मना २,
 ७९^h; -न्त्यै वृजा ३, १९.
 शाश्वित-काम- -मः सुता १, २१.
 शाश्वित-गृह- -हम् शि ४, २४.
 शाश्वित-जनक- -कम् रुजा २,
 १२ⁱ.
 शाश्वित-तेजो-रु(प>)पा- -पा
 सौ ३४.
 शाश्वित-तोय- -यम् शि ५, ३१.
 शाश्वित-दान्ति- -न्ती नाप ६, १.
 शाश्वितदान्या (न्ति-आ)दि-
 -दिभिः नाप ६, २२.
 शाश्वित-मण्डप- -पम् शि ४, १.
 शाश्वित-मथुद- -दम् तै १, ६, २.
 शाश्वित(न्ति-अ)शीत, ता- -तम्
 पं १५; -ता वृजा १, १; नाप ८,

१^o; -ते पप ४१९: ३०.
 शाश्वित्या(न्ति-आ)दि-युक्त- -क्तः
 नाप ६, १९.
 श(मि>)मी^l-
 शमी(मी-इ)न्धन-कुश-स्थान-
 -नम् शि २, १९.
 शमी(मी-इ)न्धन-तृणा(ण-आ)-
 दि- -दीनाम् शि ६, २४०.
 शमी-समित्-फल- -लम् शि ४,
 ४३.
 शम्य(मी-अ)र्ध-फल-
 शम्यर्धफल-वत्-
 शम्यर्धफलवच्च(ष>)-
 पा- -याः शि ४, ४३.
 शम्बर^m-
 शम्बर(र>)रीⁿ-
 शम्बरी-श्र(ष>)या- -याम्
 व ४३३: ७.
 शम्बर-वैरिन्^o- -रिणः सार २४५: ६
 शयन- , शयान- , शायिरवा, शरया-
 /शी द.
 शशर^p- -रैः शि ४, ९२; ६, १०८.
 शर-वर्हिस्- -र्हिः वृ ६, ४, १२.
 शर-सृष्टि- -ष्टीः वृ ६, ४, १२.
 शशर^q- -रः वृ १, २, २.
 शशर^r- -राः श २७.
 शशर-भ^s- -मः श २७.
 शशरम^t- -मम् सु १, १, ३४.
 शरभा(भ-आ)व्य- -व्यम्
 श ४.
 शशर^u- /शु द.
 शरण^v- -णम् छां २, २२, ३; ४^w; धे ३,
 १७; ६, १८; मना २, १९^x; वृजा
 ६, १०; वृ ३, ४; सुभा ६; नि
 ५२; ऋवि ७, ३९; ४०; ८, १५;
 शर २, ३८; त्रिता २, ७०; ५, २१;

a) शतशूलम् इति अत्रात् । b) वृ. मप. वृ ७८१a । c) उप. = १उदित- । d) तेषां १०, ६३, १ ।
 e) माश्रविशोप- । f) = कलाविशोप- । g) वा. व्या. च विशेषः द. (उ. तेषांश्चा १०, ९५) । h) वृ. मप. वृ ४०६d ।
 i) वृ. = १शविशोप- । वैपरी यद. । j) व्यु. अर्थध १ । k) = वामदेव- । l) व्यु. = उद्भिद्-विशोप- । m) व्यु. =
 मपद- । n) व्यु. = तीव्रान्त- । o) = किणु- । p) = वाशपोनिपदिशोप- । q) वर १ यद. । r) तेषां १०, १, १६ ।

हे ४५^१; १९; गोपू २२; वा ७;
 गार ४०८ : १२; गु ४२; ७२;
 व ४५७; ११; ४५८ : १४; ४६१;
 १५^१; ४६५ : २१५^१; वपू २, २;
 गी २, ४९; ९, १८; १८, ६२;
 ६६.

शरणा(श-श्रा)गत- -तम् वा ११;
 गोच ६६ : १०.

शरणागत-दीन- -नानाम् सार
 २३० : १६.

शरणागत-नारायण-मन्त्र-
 -श्री त्रिवि ७, ३९.

शरण्य, ष्या- -ष्यः हे ११; -ष्याम्
 दे१०; -ष्याय नाउ २, १२; -०ष्ये
 व ४३१ : २; ४५८ : १०.

शरद्- -रत् छां २, ५, १; १६, १;
 मैत्रि ६, ३३; ७, ४; सार २६९:
 २२; -रदः क १, १, २३; कौ २,
 ११^१; -रदम् २ प्र ३३:३; -रदा
 अक्ष ५, १४; -रदि महा ४, ९६;
 ५, ५३; ६, ७५; सार २४७ : ७;
 २४८ : २.

शारद-

शारद-निकुञ्ज- -ज्जाः सार
 २७० : १.

शारद-लीला- -लायाः सार
 २६९ : २१.

शारद-छत- -तम् शु १, १०.

शारद-काल- -लः कृ २३; -ले ता
 ४२४ : ४.

शारद-भद्र- -भ्रेषु महा ३, ३२.

शारद-संनिकाश- -नाः सं १३.

शारद-धर्मा(ध-ध्र)श- -विलय-
 -यम् अग्नि ३३.

शारद-कृत- -कृत सुद्र २.

१-२शारद- शार- द.

शशरम्-

शरभ-सालुव-भैरव-दोर-वृष-
 -०षक लां २ १४ : ७.

शरव्य- , शरारु- / नूद्र.

शरीर^१ -रम् १ १७; क १, ३, ३; तै
 १, ४, १; ३, ७, १^१; छां ३, १२, ३;
 ४; ५, १, ७; ८, ८, ५; १०, १; ३;
 १२, १; ३; १३, १; वृ १, ३, ६; ५,
 ११-१३; ३, २, १३; ७, ३-२३;
 ४, ३, ८; ४, ३; ४; ७; १३; ५, १५,
 १५^१; ६, १, ७; वे २, ८; १२; ५,
 १०; मै १, १^१; २, ३-५; ९^१; ३,
 २; ४; मैत्रि १, ९; २, ३-५; ६^१;
 ३, २; ४; ६, २४; ७, ११;
 मैत्रि १, १; ३; कै १, १२; गर्भ १;
 ५५^१; मना १, १५^१; २, ८०^१;
 कौ ३, ३; ५-७, ४, १९; सुभा ४;
 ७^१; तै ५, १०; ६, ४१; नाद २;
 अवि २; ४; १ योत ९४; नाप ४,
 २७; ३८^१; ६, १; योच ७२; शो १,
 ४^१; पै ४, १; महा ४, २३; शारी
 १; ५; योशि १, २९; ३८; १४१;
 ६, २८; अक्ष ४, ३९; अष्या
 १^१; कुं ११; कृ ४; १७; यो
 २, ३९; जाद ४, १; प्रा ४, १;
 वरा २, ६८; ५, १९; २२; सा २२;
 निरु १, ८; २, ९; प्र ३१; २; ६;
 व ३; सार २२७; ६; १९; २९१;
 ११; १५; १८; २३; सु २९३;
 ३, २ शिस १४; हे ९; गु ६५;
 वरु ३, ८; भव २, ७; १०; २५;
 ३, २५; कशु ३, ४; तां ५,
 १०; अरु ३, १, २७; गी १३;
 १; १५, ८; -रत्प क २, ३, ४;
 छां ८, १; १; २; मैत्रि ६, २७;
 १ योत ४६; नाप ५, १^१; त्रिमा २,

८६; रापू १, १०; शां १, ५; अक्ष
 ४, ४०; जाद ६, ४४; वि १७;
 तां ३, २; -राणाम् सार २९१;
 २२; -राणि अशि ४, ११; योच
 ५६; ७२; योशि १, १६४; वरु
 ३१६ : २; अरु १२५^१; भव २,
 ३८; गी २, २२; -रात् क २, ३,
 १७; छां ८, ३, ४; ६, ४; ५; १२,
 ३; वृ ३, ९, ४; मै २, २; मैत्रि २,
 २; ६, ८; कौ २, १४^१; ३, ४; त्रिमा
 २, ५४; शां १, ४; निरु २, ८; -रे
 क १, २, १८; प्र ३, १; ३; ४, ६;
 ६, ३; सुं ३, १, ५; तै २, ५, १; ३,
 ७, १; छां ३, १३, ७; ८, ९, १; २;
 १२, ३; वृ १, २, ६; २, १, १८; मै
 १, २; ३; मैत्रि १, ३^१; ३, २^१; मैत्रि
 १, ३; व २; गर्भ १^१; ३; कौ ३,
 २-४; वृजा ७, ४; ७; सुभा ७;
 ८; ष्या ७; अवि ३५; नाप ६,
 १; शां १, ५^१; योशि १, ७३; ५,
 ३०; अक्ष ४, ३२; अष्या १, २४
 ४१; यो २, ४९; प्रा १, १; ४, १;
 सार २९१ : १२^१; १३; गु ३५;
 रा ४२३; १४; भव २, ३७; अरु
 ३, ५३; गी १, २९; २, २०;
 ११, १३; रेण कौ १, ७; ३, ६; वरु
 १, ११^१; योशि १, ३८; १४०; जाद
 ६, ५१; सार २५५; २२; २९१;
 १४; भव १, २०; -रेषु क १, २,
 २२; नाप २, १५; जाद ४, ६२.
 शरीर- -रः तै २, ३-६, १; वृ २,
 ५, १; ३, ९, १०; ४, ३, ३५; कौ ४,
 १४५^१; प्रा २, १; वरु १, २, ३;
 २०; -रम् वृ ४, ३, ११; भव ५,
 ५; गी ४, २१; १७, १४; -रात्
 वृ ४, २, ३; अरु ४, २, १२.

a) वि १०, १२०, १२ । b) =श्रुतविशेष- वा संवत्सर- वा । वैप १ यद । c) म्यु. अर्थेथ १ । d) वैप १ यद । e) मा ४०, १५ । f) सां इति निशा. ? यनि. शोषः द. (सु. अष्या., मैत्रि १, २) । g) तैत् ७, ३, ११, १ । h) तैशा १०, ६४, १ । i) तैशा ७, ४, १ । j) ०रत्पस्य इति अष्या. । k) तैशा १, २७, २ । l) ०रम् इति सात. । m) ०रत् इति अष्या. । n) 'शरीरे' इति भांशा ६, १९ ।

शरीर-अपच- -अम् मवा ४.
 शरीर-यज्ञ- -जम् प्रा १,
 १^०; -ज्ञस्य प्रा ३-४, १.
 शरीरक^{1b}- -कम् सु १, १, ३५.
 शरीर-क- -कम् महा ३, ९; शि ७,
 १२१; -के भव २, १६; १८.
 शरीर-कुशा(श-अ)सहिष्णु- -ष्णुः
 नाप ३, ८६.
 शरीर-(ग>)गा- -गा वरा ५, ४१.
 शरीर-ज- -जम् योशि १, १४६.
 शरीर-अय- -यम् वृत् ३, १०; नाप
 ३, ८६; व ८.
 शरीरअय-तादात्म्य- -स्यात् वै
 १, ३२.
 शरीरअय-संयुक्त-जीव- -वः
 अक्ष १, १४.
 शरीर-त्व- -त्वाय क २, २, ७; ३, ४.
 शरीर-देश- -शेभ्यः वृ ४, ४, २.
 शरीर-द्वय-कारण- -णम् गोउ १२.
 शरीर-नाश-दर्शित्-
 शरीरनाशदर्शि-स्व- -स्वात् अक्ष
 ४, ८८; सु २, २, २८.
 शरीर-पथ-कुहर- -रे १संभ्या २,
 ३४.
 शरीर-योपणा(ण-आ)दिक- -कम्
 शां १, ४.
 शरीर-मादेश(श-अ)दृशुष्ट-मात्र-
 -ग्रम् मैत्रि ६, ३८.
 शरीर-भेद- -दाः सार २९, १; १४;
 -दात् ए ४, ६; -दे मांका ६८.
 शरीर-मध्य- -म्ये मुवा ८.
 शरीर-यात्रा- -त्रा गी ३, ८.
 शरीर-रूपक-विन्यस्त-गृही-
 ति^०- -नेः प्रसू १, ४, १.
 शरीर-स्व(१>)वा- -वा सी १०.

शरीर-लघुता- -ता १योत् ४५; शां
 १, ७, ४५; जाद ५, ११; ६, २४.
 शरीर-वत् ते ३, १७.
 शरीर-वाङ्-मनस- -नोभिः गी १८,
 १५.
 शरीर-विमोक्षण- -णात् गी ५, ३३.
 शरीर-शुद्धि- -द्धिम् योशि ५, ३६.
 शरीर-शोषण- -णम् शां १, २; जाद
 २, ३.
 शरीर-संचलित- -ताः सार २९, २; २.
 शरीर-संधारणा(ण-अ)र्थ- -र्थम् पप
 ४१९; ६.
 शरीर-स्थ- -स्थः योशि ५, ३०; गी
 १३, ३१; -स्थम् त्रिआ २, ८५;
 शां १, ४; गी १७, ६; -स्थस्य
 क २, २, ४.
 शरीरा(र-आ)कर्वि(वृ>)णी- -णी
 व्याय ३९, ५; १५.
 शरीरा(र-अ)मि-विवर्धन- -नम्
 योशि १, ९४; १८; यो १, ३७.
 शरीरा(र-आ)दि-व्यतिरिक्त- -क्तः
 सांशू १, ३३९.
 शरीरा(र-अ)प्तद-गत- -ताः शां
 १, ३, १२.
 शरीरा(र-आ)भास-दर्शन- -नात्
 १आ १७.
 शरीरा(र-अ)भिमान- -नम्, -नेन
 नाप ६, १.
 शरीराभिमानिन्- -नी नाप ६, १.
 शरीरिन्- -रिणः गी २, १८; -री
 १आ १४.
 शरीरे(र-इ)न्द्रिया(य-आ)दि-
 -दिभ्यः नाप ६, ९; वरा २, २९.
 शरीरो(र-उ)पाधि- -धिम् मार
 २९, १; २१.

शरीरोपाधि-धर्म- -र्मात् सार
 २९, २; १८.
 शरू- ✓शू द.
 शर्क(र>)रा^{1b}- -रया भ २, २२ -रा
 आबो १३; -तायाः शि ६, ३१.
 शर्करा(र-अ)क्ष¹⁰-
 शर्कराक्षय^१- -क्षय छां ५, १५,
 १; -क्षयः छां ५, ११, १.
 शर्करा(र-आ)दि- -द्वयः सार
 २२६; १.
 शर्करादि-विवर्जित- -ते यो १,
 २२.
 शर्करा-पांसु-निर्मुक्त- -कम् शि ५, ६
 शर्करा-वह्नि-वाहिका-विवर्जित-
 -ते खे २, १०^१; भव ३, २३^१.
 शर्मन्^०- -मं आह ३९^१; मना १,
 १०^१; नाप ४, ३८^१; पप ४१८:
 ३१^१; २प्र ३६^१; गी ११, २५.
 शर्म-(द>)दा- -दा महा ३, ८.
 शर्व^१- -र्वं मना २, १९, १९^१; नी ३, ६^१;
 व ४६, २; २१^१; -र्वः मन्त्रि १२;
 त्रि १५^१; वपू २, ३; चू १२; -र्वाय
 मना २, १६९^१; म १, ६; नी ३, ८^१;
 शि ६, १७; २२; ३३; ३५; ८९;
 ९९; १०२; -र्वेण नी ३, ४^१; -र्वेभ्यः
 मना २, १९९^१; व ४६, २; २९^१.
 शर्व- -र्वम् शि ७, १३७.
 शर्व-लिङ्ग- -ङ्गाय मना २, १६९^१.
 शर्व-लोक^१- -के शि ६, ११२.
 शर्वे(वृ>)री^१- -रीम् गोउ १.
 शर्वेर- -रम् वरा ३, ११.
 शला(क>)का^{१०}-
 शला(कक>)किका- -काम् यो २,
 ४४.
 शल्क^१- -ल्कैः मना २, ५०^१.

a) ०^१ व^० इति आन. । b) =तदाहोपोनिपदिशोप- । c) पय. >तु. >पस. । d) द्यु. ? =सिला- था
 चुपेपलसरह- था । e) =गोत्रप्रयत्नेक-अग्निविशोप- । f) पा. १^० कर्... लुकेर्वि^० इति. शोषः द्र. । g) वैपरी यद. ।
 h) आपमं २, ९, ५ । i) श्र १, २२, १५; तैष्वा १०, १, १० । j) =शिव- । वैपरी यद. । k) म^० इति पा. १ यनि. शोषः
 द्र. (तु. मैसं २, १, १०; तैष्वा १०, ४५, १) । l) म^० इति J.C. । m) स^० इति मान्त्रि. । n) तैष्वा १०, १६ । o) म^०
 इति आन. । c. । p) मंमं २, १, १० (वेद. तैष्वा १०, ४५, १ म^० इति) । q) द्यु. ? । r) द्यु. ? =वक्त्र- । s) तैष्वा १, २, १, १५ ।

शल्य^१ - श्यान् शि ३, २; श्यानाम्
 नौ २, ११५^०.
 शव^० - वा कथु ३, १५^०; यो १; श्वम्
 नाप ७; श्वानाम् यो १.
 शव-ता - ताम् भव १, ४५.
 शव-विण्ड -
 शवविण्ड-यत् नाप ७; १ संख्या
 २, ७९.
 शव-शयित - तम् ह्याम् २३ : ७;
 २४ : १६.
 शवा(व-आ)कार - रम् नाप ३, ८६.
 शवा(व-आ)धिरू(ङ>)डा - ताम्
 सुमु १.
 शवा(व-आ)लंकार -
 शवालंकार-यत् नाप ५, १;
 १ संख्या २, ५९.
 शवा(व-आ)स(न>)ना - ना वलित
 ४०१ : ७^०.
 शव्य - श्वम् छां ४, १५, ५.
 शव्यस्^१ - श्या व ४३७ : १४५^०.
 शश^०
 शश^० -
 शश-शुट - श्या व १४.
 शश-शुट-विम्व - श्वम् शां १,
 ५; श्वे जाद ५, ६.
 शश-शुटिभ्य-श्याःशाजाल-
 विवाशिता(त-आ)कार -
 श्वित् - शित् शां १, ६^४.
 शश-शिराग -
 शशशिराग-यत् ते ५, ७५;
 ८९.
 शश-शुट - श्या ते ६, ७४; ९०.
 शशा(श-आ)ङ् - ङ् नाप ९,
 ३०; गी ११, ३९; १५, ६.
 शशित्^१ - शी ते २, १६; श्या
 २६; व ४६६; २०; गी १०, २१.

शशित-कला-भास्वत्-कि-
 रीटो(ट-उ)ज्वल - लम् द
 १४.
 शशित-कान्त - श्वम् काम ६.
 शशित-निमा(ग-आ)नन -
 नम् महा २, २५.
 शशित-मण्डल - लम् त्रिवि
 ७४.
 शशित-मध्य-गत - तः श्या
 २७; तम् व ४६६ : २१.
 शशित-मु(स>)स्त्री - स्त्रीम्
 व ४२७ : १४.
 शशित-रवि - वी कृपु ६.
 शशित-रेखा^१ - स्त्रा राधा १,
 २३.
 शशित-वर्ण - णम् व १, २.
 शशित-शकल-धर - रः द ८.
 शशित-सूर्य - र्ययोः गी ७, ८.
 शशिसूर्य-नेत्र - श्वम् गी
 ११, १९.
 शशित-सूर्य-हृद्यवाहना-
 (न-आ)मक - नयन-श्वय -
 यम् अग्य २.
 शशित-स्थान - ने श्या ८८.
 शशितस्थान-स्थित - तम्
 योचु ६१.

शशय^१ - यः श् ६, ४, २७५^०.
 शशयत्^१ - छां ६, १३, ३; गै ५, ७^१;
 मैत्रि ६, ७; वृजा २, ५; गारा १, ४३;
 त्रिवि ६, १०; ७, १८; १९; कृ
 ३; वरा ५, ३०; दृ ११; २१; पा
 २; सि ६, ४; सी ३३; यदृ १, ५५^०.
 शशयत् - त तां २१५ : १३;
 -तः क १, २, १८; मै २, ४; मैत्रि
 २, ४; ६, १८; तै ३, ३; ४८; त्रिवि
 १०४; त्रिवि २, ६^१; भव २, ३७;
 गी २, २०; तम् क २, १३; खे

६, १२; यो ४, ५७; मना २, १३,
 १५^०; अशि ५, ७; वृजा ८, ६; दृप्
 ५, १०; तै १, ८; नाद १६६; त्रिवि
 ५४; त्रिवि ४, ४; ७, १७; १८;
 गहा ५, ४५; योशि ४, ७; अज
 १, ४७; त्रिता १, १३; कृ १२;
 गोप् २०^०; वटु ३१७ : ८; शि
 ७, ११५; १२१; स ३७९; १९;
 सि ६, ४; शु ४४; वउ ५, २९; भव
 १, ३३; गी १०, १३; १८, ५६;
 ६३; तस्य गी १४, २७; तां;
 गी १, ४३; -ताय नाउ २, ११;
 -ते शु १, ४; गी ८, २६; -तेन
 अशि ५, १९^०; वटु ३१७ : ९.
 शशयती - स्त्री क २, २,
 १३; व ३, ८; गोप् १२९^०; स ३७८;
 १३; भव २, ४८; तीः श् ५, १०,
 १; गी ६, ४१; तीम्यः ई ८; तीम्
 १ संख्या २, २८; शि २, २२.
 शशयत्-श्व - श्वम् त्रिवि २, ७
 शशयत्-धर्म-गोप् - ता
 गी ११, १८.
 शशयत्-विशान-सम-रसा-
 (स-आ)मन् - रसा आशो १०.
 शशयत्(त-आ)मक - कः
 तै ४, ६३.
 शशयत्(त-आ)नन्द-वि-
 म् - द्वा ते ३, ३७. -
 शशयत्(त-आ)शशयत्-
 (त-आ)शिया - धा गी ४, ६०.
 शशयत्-शमित - नितम् गी ९, ३१.
 शशयत्^१
 शशयत्^१ - श्वम् यो २, २९; भव १,
 १४; ता २२, १; ६; भव २, ३९;
 गी २, २३; श्त्रेण ६ १०; १५.
 शशयत्-शानि - श्वयः गी १, ४६.

शस्त्र

शशयत्^१ - श्वम् यो २, २९; भव १,
 १४; ता २२, १; ६; भव २, ३९;
 गी २, २३; श्त्रेण ६ १०; १५.
 शशयत्-शानि - श्वयः गी १, ४६.

a) =इयु-। वैपरी यद.। b) मा १६, १३। c) श्युः। च्युतशरीर-। d) शी ११, ८, ३४। e) सवा^०
 इति ताश्रि.। f) वैपरी यद.। g) श्च २, २३, १५। h) नासाभराश^० इति श्रया.। i) =चन्द्रम-। j) =गोपी-
 विशेष-। k) श्च १, १६४, ४९। l) 'शायत्' इति निमा.। यनि. शोषः द. (तु. नाउ.)। m) 'सादनम्' इति श्च २,
 २३, १। n) तैषा १०, ११, १। o) 'सी' इति श्रान.। p) 'तम्' इति श्रया.। q) 'तम्' इति श्रान.।

शास्त्र-बाण-क्षत-
 शास्त्रबाणक्षत-स्फोट-व्रण-
 महाव्रण-कृत- -तानाम् गर
 २४.
 शास्त्र-भृत्- -भृताम् गी १०,
 ३१.
 शास्त्र-संपाल- -ते गी १, २०.
 शास्त्रा(क्ष-श्र)मि-जल-मारुत-
 -तैः योशि १, २९.
 शा^१ आष ३९८:१९.
 १शाक^b-
 शाकि(न्)नी^c- -नी पी ४२२:
 १२.
 २शाक^d-
 शाक-जात- -त्तम् १योल ४७.
 शाक-मूल-फल- -लानि शि ६, २१;
 -लेन इ १९:५.
 शाक-विचिध-पद्म-संबलित-
 -ताः सार २२३:१.
 ३शाक^e-
 शाकायन्या^f- -न्यःमै १-२, १; मैत्रि
 १, २^१; २, १; ६, २९; ३०; मैत्रे
 १, १; ४, १; -न्यस्य मै १, १; मैत्रे
 १, १.
 शाकल- , शाकल्य- शाकल- द्र.
 शाकिनी^g - त्रवि ७६.
 शाकुनिक- शाकुनि- द्र.
 शाक्त- √शक् द्र.
 शाकर- शाकरी- द्र.
 शा(न्)खा^h- -खाः छां ५, २, ३; वृ
 ६, ३, ७-१२; मै ५, ४^१; मैत्रि ६,
 ४; शृजा ८, ५; शृपू ५, १८; नाप
 ६, १; सु १, १०; ११; १२^१;
 १३^१; सार २८७:२३; सु १;

वृ ५, १८; गी १५, २; -खानाम्
 गु २; -खाम् छां ६, ११, २;
 -खायाः सु १, १, १४; -खासु सी
 २५, १^b; गु ४; वसू ३, ३, ५, ५;
 -खे का ९; १२; नार १०.
 शाखा-नाडी-सहस्र- -स्त्राणि
 सुभा ४.
 शाखा(खा-श्र)न्तरोर(-उ)पनिप-
 त् -स्वरूप- -पम् त्रिवि ४, ३.
 शाखा-पल्लव- -धानि वरा^५, ३६.
 शाखापल्लव-रूप- -पेण योशि
 ३, ५.
 शाखा-प्रतिशाखा- -खाः सार
 २२२:२१.
 शाखा(खा-श्र)वधि- -धिः(शिवि)
 यो २, ३५.
 शाखा(खा-श्र)सक्त- -क्ताः सार
 २६२:१७.
 शांकर- √शम् द्र.
 शा(दि)टीⁱ- -टीम् नाप ४, ३८; ५,
 १; १संन्या २, १३.
 शाटी-द्वय- -यम् नाप ७.
 शाट्य- , शाट्यायन- शट- द्र.
 शाण्डिली- , शाण्डिल्य- शाण्डिल- द्र.
 शातकुम्भ- शातकुम्भ- द्र.
 १शातातप^k-
 २शातातप- -पम् गार ४०७:१२.
 शानम्^l पो १.
 शान्त- , शान्ति- √शम् द्र.
 शाप- √शप् द्र.
 शाप्द- शब्द- द्र.
 शाप्मर- शप्मर- द्र.
 शांभय- √शम् द्र.
 १शारद- शरद- द्र.

२शारद(व)दा^m- -दानिर्वा २९८:४
 ३शारद(व)दाⁿ- -दे. सर ३, २.
 शारदान्मठ- -ठः म ४८:७.
 शारिका^o- -का सार २८८:५६;
 २१; -काम् शि ६, २०८.
 शारीर- , शारीरक- शरीर- द्र.
 शार्कराक्ष्य- शार्करा- द्र.
 शार्ङ्ग- √शृ द्र.
 शार्ङ्गल^p- -लः कौ १, २.
 शार्वं- शर्व- द्र.
 शार्वैर- शर्वैरी- द्र.
 शा(ल)ला^q- -लानु सार २६६:
 १४.
 शाला(ला-श्र)न्तर- -रे इ १२:१८.
 शालावत्^r-
 शालावत^s-
 शालावत्य^t- -त्यः छां १, ८,
 ८; -त्यः छां १, ८, १; २; ६.
 शालि^u-
 शालि-तण्डुल-कल्पित- -त्तम् शि
 ६, ६६.
 शालि(न्)नी^v- -नी गार ४०७:१९
 शालीन^w-
 शालीन-वृत्ति- -त्तयः आश्र २^१.
 शाल्मलि^x-
 शाल्मलि-तूल- -लम् भव १, २४.
 शाश्वत- शश्वत्^y- द्र.
 √शास्^z शिप्, शास्त्रि वसू १, १, १९;
 शाधि छां ४, २, २; मै ४, १^१;
 वा ३; गी २, ७.
 शासन- -नम् त्रवि १०; ते ६, ८;
 -नात् ते ५, १८; योशि ४, ४.
 शास्त्र- -स्ता मैत्रि ६, ८; ७; ७; भव
 ५, १५.

a) =धीजमन्त्रविशेष- । b) व्युः । c) व्युः =गोत्रप्रवर्तक-श्रमिविशेष- । d) पा ४, १, १८; ५, ३, १३ ।
 e) निता? 'दाहिनी' इति शोधः द्र. (तु. अख्या.) । f) वैपरी यद्र. । g) तु. गपू. पृ १४९। । h) पा. १ 'शाखाः स्युः' इति
 द्विपदः शोधः द्र. । i) निता? यनि. शोधः द्र. (तु. अख्या.) । j) व्युः =वस्त्रविशेष- । k) व्युः =श्रमिविशेष- ।
 l) 'इमशानम्' इत्यस्योत्पत्तिः । m) व्युः विप. =अदवा- । n) व्युः =सरस्वती- । o) व्युः =पक्षिविशेष- ।
 p) पा ५, ३, ११८ । q) व्युः =गोहि- । r) व्युः =राक्षिविशेष- । s) व्युः =वृक्षविशेष- । t) 'भनुनाधि' इति
 मैत्रि ४, १ ।

शास्त्र^१ - अस्मि वसु १; ते २, ३; ३, ५०; ५, ४३; ६, ८; अवि ४८; आबो १९; सी २१; महा ३, १५; योशि १, १२४; १अव ३२; यो २, १०; ११; १३; २७; दह २१; सु १, १, ५५; शि ७, १३४; गी १५, २०; १६, २४; अस्व्य वृजा ५, १४; अवि ४२; ५०; महा ४, ५; -स्वाणाम् कौ २, ६९; -स्वाणि अना १; महा ५, १६३; अलि ८; १अव १३; त्रिता १, ११; ४, ३६; कृपु ४; -स्वात् लि ३११; ४; -स्वे ते २, ४२; -स्वेण ते ३, १९; १योत ७; महा ६, ७४; योशि १, ५; यो २, १२; वरा २, ६९; -स्त्रेषु रार १, ४; महा २, ३३; -स्त्रैः ते ५, ४६; महा ४, ४; सार २३१; १३. शास्त्र-गीत-(त>)ज्ञा^२ - ज्ञा सार २२३; ३. शास्त्र-गुरु-सज्जन-सेवा - बया अलि १४. शास्त्र-चिन्तन - नम् मैत्रे २, २१. शास्त्र-जाल - खानि पै ४, १७; -स्त्रेषु १योत ६; योशि १, ४; -स्त्रैः योशि १, ६१. शास्त्र-ज्ञान - नात् नाप ५, १; १संन्या २, १२. शास्त्र-दातृ - वारम् यो २, १२. शास्त्र-दम् - दशा महा ५, ८१. शास्त्र-दधि - दधा प्रसु १, १, ३०. शास्त्र-योगि - शास्त्रयोगिन-व- -स्वान् वसु १, १, ३. शास्त्र-चाकया(नय-अ)र्थ- -र्थे अलि १६. शास्त्र-वासस्य - न्यम् नाप २; सु १, २, ६.

शास्त्र-वासना - न्याय सु २, २, २; -नाम् नाप ५, १; १संन्या २, १२. शास्त्र-विज्ञान - नम् वरा ५, ५८. शास्त्र-विद्या-कला(ला-अ)क्षर- -राः योशि ६, ११. शास्त्र-विद्वस - -ज्ञासः मैत्रि ७, ८. शास्त्र-विधानो(न-उ)क्त - -कम् गी १६, २४. शास्त्र-विधि - -धिम् गी १६, २३; १७, १. शास्त्र-सज्जन - -मैः महा ५, २७; वरा ४, ३. शास्त्रसज्जन-संपर्क - -कैः अवा ५, ७१. शास्त्रसज्जनसंपर्क-वैराग्या- (नय-अ)भ्यास-पूर्वक - -कम् महा ५, २८; वरा ४, ४. शास्त्रसज्जनसंपर्क-वैरा- ग्या(नय-अ)भ्यास-योग - शास्त्रसज्जनसंपर्कवैरा- ग्याभ्यासयोग-तत्र(>) वां १, ७, २६. शास्त्रसज्जनसंपर्क-वैरा- ग्या(नय-अ)भ्यास-रूप - शास्त्रसज्जनसंपर्कवैरा- ग्याभ्यासरूपि(र>)णी - णी अज ५, ८१. शास्त्र-संतति - सौ यो २, ८. शास्त्र-सिद्धान्त - -न्ते महा ४, १०१. शास्त्रा(त्रि-अ)नुवर्तन - -नम् अलि ४२; अथा ३. शास्त्रा(त्रि-अ)न्त - -न्तम् पै ४, १६. शास्त्रा(त्रि-अ)र्थ - -थान् द ८. शास्त्रा(त्रि-अ)र्थवचन - -वाम् वसु २, ३, ३३.

√शास्त्रि शास्त्रित - -तम् सु २, ३, १; मव १, ४८; -तात् मव १, ४१. शास्त्रीय - -यः १अव २२; -येण १अव २३. शास्त्रो(त्रि-उ)क्त - -क्तः भव २, ६२. १शिष्ट - शिष्ट-पूर्ण-स्वरूप - -यः ते ५, ७३. शिष्ट-प्रतिपालक - -काय नात् २, ८. शिष्ट-धर्मन् - -र्मनि महा ४, १८. शिष्टा(ष्ट-अ)चार - -रात् सांस् ५, १. शिष्टा(ष्ट-अ)नुशिष्ट-स्वेष्ट- ध्यान-कथा-सेवा(वा-अ)नु- भाव - -वेन सार २५७; १. शिष्टा(ष्ट-अ)परिमह - -हाः ब्रह् २, १, १२. शिष्टि - -ष्टैः ब्रह् ३, ३, ६२. शिष्य - -ष्यः नि १०; ४२; ४३; ते ४, १६; ६, ३७; त्रिवि २८; त्रिवि १, ४; ५, १; ८, ७; १३; जाद १, २; शि ७, २०; ६३; तारा ८४; १३; गी २, ७; -ष्यम् मं ३, ३, ३; त्रिवि १, ५; ५, ४; निर्वा २९८; १७; महा ५, १०४; पप ४१८; ७; ग ४; दता ३; -ष्याः १योत ७८; -ष्याणाम् १संन्या २, ८३; -ष्यान् नाप ५, २२; -ष्याव नृपु १, १; सुद्र ४; सु १, १, ५५; ४०; नापु ६, ११; अलि ४०३; ११८; १कौल ६, १; २कौल ७; व १, १; -ष्ये पप ४१८; १९; -ष्येण गी १, ३; -ष्येभ्यः मव १; व ४६५; ३. शिष्य-किंका - -राः मैत्रे २, २४.

a) 'शस्त्रेषु' इति शांभा ४, ६ । b) श^० इति अथ्या । c) 'स्वयण' इति निसा । d) वा. क्रिवि. द. ।

शिव्य परंपरा-स्या साक्षात् ७१.
 शिव्य-प्रशिव्य-स्यैः शि ७,
 १३७.
 शिव्य-वत् ते ३, १८.
 शिव्य-संग्रह-हः १संन्या २,
 ८३.
 शिव्य-संचय-यः १संन्या २,
 ७९^१.

शि^१
 शि-कार-रः सिशि ३८२: १२.
 शिशुमार^०-
 शिशुमार-चक्र-कम् त्रिवि ५, १२
 शिशुमार-प्रजापति-त्रिम् त्रिवि
 ५, १२.

शिक्ष्य^{१०}-क्यम् जा ६; नाप ३,
 ८६; कुं ९; कर १; शा ७; कथु
 ३, १.
 शिक्ष्य-कमण्डलु-हस्त-स्ताः
 आश्र ४.
 शिक्ष्य-माण्ड-समाश्रय-यम् शि
 ६, २७५^१.

शिक्ष्य^१ मना २, ८.
 √शिक्ष, शिक्षेत् वृ ५, ३, ३.
 शिक्षक-काः २प्र ३४: १५^१.
 शि(, > गी)क्षा^{१०}-क्षा सुं १, १, ५;
 सुवा २; शी २७; वृह २९; गार
 ४०६: ९; क्षाम् तै १, २, १^१.
 शिक्ष-क्षम् २प्र ३६: २५^१.
 शिक्षा(जा-अ)व्याय-यः तै १,
 २, १.

शिक्षित-त्तः राउ ४, १.
 शिखण्ड^{११}-
 शिखण्डिन्^{११}-ण्डिनः नी २,
 १२५^{१०}; ण्डिनम् नी १, १.
 शिखण्डिन्^{१०}-ण्डी गी १, १७.
 शिखण्डिन्^{१०}-
 शिखण्डिदललम्बितत्रियुममु-
 क्षावत्समणिमयकिरीटशिराः^१
 राधा ३, ९.

शिखर^१-रम् महा २, ७५; रे मना
 २, ३६५^१.
 शिखरिन्^१-रिणाम् मै १, ७; मैत्रि
 १, ४; मैत्रे १, २; गी १०, २३.
 शिखा^१-खा मैत्रि ६, २४; मना २,
 ३५५^{१०}; ८०५^१; प्र ३, ३^१; ५; त्रिवि
 ९; १०^{१०}; नाप २, ८३^१; ८५;
 त्रिमा २, २३; निर्वा २९८: ११;
 शा १, ४; १संन्या १, १^१; पप
 ४२०: ७; पाशु २, ५^१; पत्र २;
 ३, ७^१; ११; पठं २; शा १७; सु
 १, १, ३५५^{११}; १प्र ३१: १५;
 म ४९: १८; कालि ४०३: ३;
 कथु १, १^१; स्वाम् जा ६; आह
 १; नाप ३, १७; ७७; ४, ३८;
 १संन्या २, ६; पप ४१८: २३;
 पठं १; २^१; या १-२, १; शा २०;
 -^१खायाः मना २, १३, ३; महा
 १, १; वा २३; च २१५, नाउ
 १, २०; कालि ४०३: ६; स्वायाम्
 वृत्वा ६, १२; ७, ८; वृप ५, १०;

राउ २, ८३; म २, २; वृत्वा १^१
 १५; ३, १; दत्ता १, ५-७; वृष
 ८^१: ७; सिशि ३८२: २; व ४२६:
 ६; लाथि वृप २, ४; शु १, १८;
 लां २१३: ८; वपु २, २.
 शिक्षा(खा-आ)दि-कथा-घर-
 -रः नाप ५, १^१; १संन्या २, १३.
 शिक्षा(खा-अ)न्त-न्तः गार
 ४०८: ६.
 शिक्षा(खा-आभ->)भा-भा १प्र
 ३१: १७.
 शिक्षा-मणि-णौ अक्ष ५.
 शिक्षा-यज्ञोपवीत-तम्^१ पत्र २;
 -त्ते पठं १^०.
 शिक्षायज्ञोपवीत-मूल-लम्
 पत्र २.
 शिक्षायज्ञोपवीत-रहित-त्तः
 नाप ५, १; १संन्या २, १३.
 शिक्षायज्ञोपवीतिन्-ती नाप
 ५, १; १संन्या २, १३.
 शिक्षा-रूप-पम् राउ ५, ७.
 शिक्षा-वर्जित-त्ताः आश्र ४.
 शिक्षिन्-खिनः शा ११^१; -खी
 त्र ३, ३; नाप ३, ८३; पत्र ३,
 ७; वरा १, १७; शा १८.
 शिक्षिन्^१-
 शिक्षिनी^१-न्याम् त्रिवि ८०
 शिक्षि-स्थान-नम् त्रिमा २,
 ५६; शां १, ४; जाद ४, १.
 शिक्षि(व->)नी^१-नी व ४२६: ५.

a) 'संग्रहः इति अस्या । b) 'शिय->नाय' इत्यस्यायमक्षरम् । c) वैपश् यद । d) =साऽऽलम्ब-
 भाण्डाऽऽधार- । वैपश् यद । e) पा.१ 'कपं मा' इति द्विपदः स्रोथः द्र । f) पा.१ शिक्षा-> शिक्ष्य->-क्ष्यः
 इति स्रोथः स्यात् । अत्र 'स तां शिक्ष्यः पुरोयाचोपनिषदम्' इति जागतः पाद इति कृत्वा यथायोगं स्रोधान्तरमपि
 द्र. [वैपु. भा. प्रथ. वृष्ये साऽऽयायाः (तैषा १०, ६, १)] । g) 'शिक्षुकाः' इति गोत्रा १, १, २४ । h) =वेदात्रविशेष- ।
 i) ति^१ इति निशा । j) 'क्षपम् इति गोत्रा १, १, २७ । k) =शिष्या- वा मयूरवृक्ष- वा । वैपश् यद । l) शिक्ष-
 इत्यस्य वि. । m) 'कपद्रिनाः' इति मा १६, १० । n) =द्वीपदविशेष- । o) =मयूर- । p) पा.१ । q) व्युः =गानु- ।
 r) तैषा १०, ३०, १ । s) =वर्जित- । t) व्युः =अमिश्रिता- वा शिरःशिक्षा- चोपनिषद्विशेष- वा । u) तैषाम्
 १०, ३५ । v) तैषा १०, ६४, १ । w) 'स्वामा इति अत्रान । x) =योगशिक्षाव्योपनिषदुत्तरांश- । y) 'स्वम् इति
 अस्या । z) तैषा १०, ११, २ । a') 'स्ताकन्धादि' इति अस्या । b') समाहारे द्रस । c') 'खां यज्ञोपवीतम् इति
 निगा. 'त्वम् इति अस्या । d') 'गिना इति अस्या । e') =अग्नि- । f') =अग्निज्जला- ।

शियु^१- -सुम् रुजा २, १७.
 शियुशिल^२- -लम् अथ्य ६.
 शैयिक्य- -व्यम् मव ३, २०.
 शिपि^३-
 शिपि-विष्ट^४- -ष्टः नाप ३, १; ३;
 १संन्या २, ३.
 शिशिवि(<>वि)^५-
 शिवि-क>का^६- -काम् शि ६,
 २०६.
 शिशिवि^७-
 शैभ्य- -व्यः प्र १, १; ५, १; शी
 १, ५.
 शिवि-कुल- -लम् इ १० : १.
 शिवि-सप्तम- -०म इ १८ : १८.
 शिमि^८-
 शिमी-
 शिमी-वत्- -वान् मना १, १९^६.
 शिमि^९-
 शिमि-जावरी^{१०}- -०रि व ४६४ :
 १६९^६.
 शिरस्^{११}- -रः तै २, १-५, १; वृ १,
 १, १; २, ३; २, ३, ३; ५, १७९^६;
 ५, ५, १; ४; मै ५, ६; मैथि ६,
 ६; इं १४; २८; गर्भ ३; ५;
 मना २, २५९^६; अशि ३, १०; ६,
 ८^६६^६; वृजा ४, ११; सु १, १५^६;
 ते २, १४; १अव ३; १योत १४०;
 गह ११९^६; आच ९; निह १,
 ११; २, १; पि ११; नापू ३, १०;
 लि ३१० : २३^६; वड ३१५ : १०;
 शि ३, ७; ५, १६; ७, ५५; सु ८;
 व ४५८ : ५; भव २, २८; वृ
 १४; -रसा मै १, २; मैत्रि १,
 २; मना १, ८९^६; अना ११; रड
 २; म १, ५; रुजा १, १५; शा

१३; ऊ ६३ : ८९^६; शि ६, १७१;
 व ४६४ : १०९^६; शी ११, १४;
 -रसि रुजा ३, १८; ४, २९; ३२;
 ५, २; ७, ८; अता ६; रार २,
 ८३; व्रिता २, ९; रुजा १, २१;
 ३, १; २योत २, ३; जाद ६, ३१;
 ऊ ६४ : ९; वृप ८५ : ६; सार
 २४३ : १२; १३; २७६ : ७;
 लि ३१० : ६; २१; वपं ३११ : ३;
 ३१२ : ६; शि ७, ४३; व ४२६ :
 ६; हंषो ६; -रसे वृप २, ४; सु
 १, १८; सां २१३ : ७; वृपू २, २;
 -रोमिः सं ९.
 शिरः-कर्णो(शुं-अ)क्षि-वेदना-
 -नाः योचू ११७.
 शिरः-पक्षसी-पृष्ठ-मुच्छ-
 शिरःपक्षसीपृष्ठपुच्छ-वत्-
 -वान् मैत्रि ६, ३३^{१७}.
 शिरः-पाणि-पाद-पायू(यु-उ)पस्थ^{१८}-
 -व्यम् लि ३१० : ३३.
 शिरः-पाणि-पाद-पार्श्व-पृष्ठो(ष्ठ-ऊ)-
 ऊ(र-उ)द्वर-जङ्घ-मिश्रो(अ-उ)-
 पस्थ-पायु- -वचः मना २,
 ६५९^६.
 शिरः-पिण्ड-
 शिरःपिण्ड-मय- -व्यम् महा
 ५, १५६.
 शिरः-पीठ- -उम् लि ३१० : २३.
 शिरः-प्रवेस- -ने मह ५.
 शिरः-शूल-
 शिरःशूला(उ-अ)क्षिशूल-कण-
 शूल-वासिकाशूल-गण्डशूल-
 कपोलशूल-तालुशूलौ(ल-श्री)-
 पृथूल-विह्वलशूल-मुसलशूल-कण्ड-
 शूल-कूर्परशूला(ल-अ)वरगल-

शूल-स्कन्धशूल-याहुशूल-कक्ष-
 शूल-प्रकोष्ठशूल-मणिवन्धशूल-
 करशूल-करपृष्ठशूल-कराहुली-
 शूल-हृदयशूल-मनःशूल-स्तन-
 शूल-पार्श्वशूल-कुक्षिशूल-नाभि-
 शूल-कटिशूल-गुदशूल-गुहशूल-
 मूलशूलो(ल-ऊ)शूल-जातु-
 शूल-जह्वाशूल-गुदकशूल-पाद-
 शूल-पादाहुलीशूल-विस्फो-
 टक-प्रभेदि(न)नी- -०नि व
 ४३४ : ७.
 शिरस-गुल्फ- -व्यम् १संन्या २,
 १०.
 शिरः-स्थान- -ने जाद ४, ४८.
 शिरो-जात- -तम् ध्या ७७; योचू
 ५०.
 शिरो-देश- -शाम् रुजा ३, ३१;
 ४, १.
 शिरो-पार्श्व- -र्याः सिशि ३८२ : ३.
 शिरो-मध्य-गत- -ते जाद ६, ३५.
 शिरो-योग- -नाः जाद ६, ३२.
 शिरो-ललाट- -दे शि ५, २२.
 शिरो-ललाट-भ्रू-मध्य- -ध्ये रार
 २, ४३.
 शिरो-ललाट-वक्षः-स्कन्ध- -न्धेषु
 वृजा ७, १; काला ८; जाग १७.
 शिरो-ललाट-वक्षः-स्कन्ध-मणि-
 बन्ध- -न्धेषु सिशि ३८१ :
 १७.
 शिरो-ललाट-हृदय- -येषु वा १४;
 गेच ६६ : १४.
 शिरो-लुण्ठन- -नम् व ४४९ : ९.
 शिरो-वर्त^{१९}- -वम् सुं ३, १०.
 शिरा^{२०}- -राः मै २, ७; योचू ५६^६;
 छाग २५ : ११; -रानिः मना २,

a) व्युः। =शा ऋशेष-। b) व्युः। < / अथ इति अभा. प्रयु.। c) वैप१ यद.। d) =दुरचर्मन्-।
 e) वृ. गह. ५५७०७। f) व्युः। =यानविशेष-। g) व्युः। =गोत्रप्रवर्तक-ऋषिविशेष- वा वृषविशेष- वा। h) अ
 १०, ८९, ५। i) व्यु. अर्थरच। j) तैत्रा ४, २९, १। k) अ १, ११६, २२। l) तैत्राश्रा १०, ३५। m) शी १०,
 २, २७। सह्य 'शियम्' इति अर्थवत्। n) मा १२, ४। o) तैत्रा १०, १, ८। p) सह्य 'पुच्छपृ' इति पाः। यनि.
 शोषः द.। q) समाहारे द्वय.। r) तैत्रा १०, ५३, १। s) व्युः। =नाडी-। t) सि^० इति अर्थवत्।

१३, २१९^०; शां १, ४^०; महा १, ११९^०.

शिरा-शत- -तानि गर्भ ५.

शिलक^{१०} - -कः छां १, ८, १, ३; ६.

शिरा(ल>)ला^० - -ला महा ५, ५७; -ला:

योशि ६, ११; सार २५६: ५^३;

-लायाः महा ५, ५१.

शैल- -लम् अत्र २, ४३; शि ३,

९; सिशि ३८२: २२; -लाः महा

३, ४९; -लानि सिशि ३८३: २.

शैल-ज- -जानाम् शि ६,

२६४.

शैल-सम- -मम् ध्या १.

शैले(ल-इ)न्द्र- -न्द्रम् अत्र

४, १२.

शिला-पुत्र^१-

शिलापुत्र-वत् सां ६, ४.

शिला-वत् मैत्रे २, ३०; महा ५, ६.

शिला-शब्दा(ध्या-आ)सना-

(न-आ)सीत- -नः अक्षि १६

शिला-साध- -स्यम् १संन्या २, ५३.

शिलो(ला-उ)पम- -मः महा २, ६.

शिल्लिन^{१०}-

शैल्लिनि^१- -ने: वृ ४, १, २^१.

शिल्लुप^{१०}-

शैल्लुप- -पः १आ २१.

शिल्लुप^{१०} - -ल्यः, -ल्यत् वृ ६, ५, ३.

शिल्लुप^{१०} - -ल्यम् नाप ४, ५.

शिल्लुपो(ल्य-उ)पजीविन्- -विनः

मैत्रि ७, ८.

शशिव, या^१- -०च राउ ३, ६; सार

२५९: १६; २१; २६०: २; १२;

-यः मां १२; धे ३, ११; ४, १८; गौ

१, २९; कै १, ८^{१०}; ना २; मना २,

१३, २६^०; २, २१६^०; ६९६^०; अ ३;

वृजा २, ९^३; ४, २२; वृपू १, ८^{१०};

वृ २, १०; मैत्रे २, १; ३, ४;

१२; १३; ते २, २७; ३, ३३;

४, १; ५, ३; ८०; ८७; ६, १७;

नाद ३०; ध्या ८८; अवि ३४;

१०४; नाप ८, २; त्रिवा १, २^३;

२, १२; १३; २७; द १; १२; श

३०; ३१; स्क १; ६^३; ८-१०;

त्रिवि २, १६; सार २, २०; ५, २;

महा ४, ७६; ८५; ६, ६१; योशि

१, ११; अत्र ३, २१; अध्या २०;

१आ १; २०; पाशु २, ७; ११;

त्रिता १, ४१; ४३; २, ११; २३;

रुह ४४; म २, १२; जाद ४,

३५; १०, ५; ता २, २; मया ११;

पं ३५; ३६; वरा २, ६३; ४,

३२^३; सूता १, ५; नापू ३, ६७^०;

५, १६; सार २५५: ४; २०^३;

२५७: १२; १४; २६०: १; १९;

२०; नी २, ११६^०; ३, ३; वृ

१४^३; १५; १६; १८^३; २०;

२३^३; २४; शि १, १०; १४-१८;

२३; ६, ३९; ११२; ७, २-४;

३८; ७२; ७३; स ३७८: १०;

कालिध ०२: ६; २२; ४०३: ७^{१०};

कामे २; ७; १२; काम १६; गुपो

४२०: १; ५; ४२१: ४; ४६२: १;

चक्र ९; हंघो १; ६; १४; १८; तारा

८३: ७; अद्वैता ५; २०; वपू १,

२; २, १३^३; ४; ३, १; व २, १;

२६^३; -वः-वः शि १, ९; -वम्

मां ७; खे ४, १४; १६; ५, १४;

मैत्रि ७, ९^३; अवि ९; कै १, ६;

मना २, १३, १; २, ७९^१; वृजा ४,

१९^{१०}; ५, १५^३; ६, ७^३; वृपू ४, ७;

वृ १, १२; नि १४; शु १, १;

८; ते २, १; नाद १७; १८;

ध्या ३३; अवि १५; नाप ८,

२०; ९, १८; त्रिवा २, २०; योचू

१०६; निर्वा २९८: १०; मं ३,

१, ३; त्रिवि ५, १२^३; राउ ३, १;

शां १, ७, ३४; २, १; ३, १^३; महा २,

६८; ४, ७१६^०; ५, ४५; योशि १,

६७; त्रिता १, ६१; रुह ३७;

४७; यो १, ७४; २, १३; म १,

१; ६; २, ३; २९; जाद ४, ५७;

५९; ८, ७; प्रा १, ५; वरा ३, ६;

५, ६०; नापू १, १७; नी १, ७^{१०};

१६; २९; शि १, २८; ३२; ५, १८;

३३; ४३; ५२; ६, १; १५१;

१५६^३; ७, ४; ७५; १२८; १३०;

स ३७८: ६; सिशि ३८०: ३;

९; ३८२: १७; व ४३२: ४;

४३५: १५; चक्र १३; पो २०;

वपू १, ५^३; २, २; व १, १५; २,

५^३; ५, ४०; -वम्-वम् शि १, २१;

-वया सार २५७: १४; -वस्य

अवि ३; स्क ८; योशि १, १६९;

५, ५; वरा ५, ५०; ११ ३१: ४;

शि १, २०; २४; २, २०; २४; ६,

१२४; १२५; १३३; १७४; १८१;

१८५; सिशि ३८०: ४; ३८१:

६; ३; ३८२: ६; -वा खे ३, ५६^०;

गौ २, ३३; शां १, ७, १५; योशि

६, ४७; सु १, २५; नी १, ७^{१०};

८६^०; लि ३०९: ७^{१०}; आय

३९३: १-५; ६^३; ७-१०; ३९४:

१-२३; ३९५: १-५; ६^३; १२^३;

१३-२०; २२; २३; ३९६:

१-१८; १९^३; २०-२३; ३९७:

a) 'ला' इति निरा. इति शोधः द. (ग्र. तैच्चा १०, ११, २)। b) सिं इति अश्या.। c) स्तीकरा इति निता, यस्या, सोरकारा इति अश्या. संदि. च यनि. शोधः द. (ग्र. तैच्चा १०, ११, २)। d) व्युट् = अविशिवो-। e) वै १ यद.। f) = युपलिका-। g) विप. वा नाप. वा योजाचरविशेष- वा। वै १ यद.। h) तैच्चा १०, ११, २। i) तैच्चा १०, ४०, १। j) तैच्चा १०, ६९। k) मा १६, १३। l) तैच्चा १०, ६३, १। m) 'वत्' इति अश्या.। n) तैच्चा १०, १, १। o) तैत् ४, ५, १, १। p) मा १६, २।

१-१३; १४; १६-२०; २१;
 २२; २३; ३९८: १-५; ७-१०;
 १२-२३; ३९९: १-७; ९-१३;
 १५; १६; गु ४७; व ४२: ७: ८:
 -या: शि १, ९; -याद् वरा ४,
 ३२; सिशि ३८२: ७; -यानि सि
 ७, १२९; -याम् प्र २, १३; ये
 ३, ६९; दे ६; १०; नी १, ५९;
 विद्या ४; -याम मना २, १६९;
 वृजा ४, २९; ३१; नि १; स्क ८:
 त्रिवि ७, ३०; १संन्या २, ३२;
 त्रिता ४, १७; म २, ४; वरा २,
 ३५; दत्ता २; शि १, १६; ६, २;
 ३; ७: ८; १०; १५; १८; १९; २५;
 २८; २९; ३९; ४३; ४६; ६३;
 ६७; ७६; ८१; ९७; १०१; ११४;
 २४५; २४७; २४८; २५०;
 २५१; २८२; ७, २; ८९; वपू १,
 ३; -यायै दे ३; -ये त्रिशार, २०;
 यो १, ७५; जाद ४, ५७; सिशि
 ३८१: १; ४; ३८३: १; -०वे व
 ४३ १: १; ४५८: १; -वेन मना
 २, ७७९; शु ३, १९; त्रिवि ५,
 १२; यो १, ८६; कद १५; सार
 २१८: ५; नी १, ६९; शि ४,
 ५२; -वी वरा ४, ४२.
 शैव- -व: म २, ४; २८; पी
 ४२२: १९; १कौल ६: ३; २कौल
 ७; -वम् त्रिवि ५, १२; अक्ष ३;
 कुं २०; म २, २८; स ३७९
 २; -वा: अक्ष १२; सार २३५:
 ४; २७३: १२; -वाम् म २, २८:
 त्रिता ४, १५; -वानि त्रिता १,
 ११; -वैश्व. म २, ४; -वैषु राउ
 ५, ४.
 शैव-लिङ्ग- -ङ्गेन शि ३, ८
 शैवा(व-आ)गम-स्थ-
 -स्थानाम् अक्ष ३, २१.

शैवा(व-आ)गम- -कम्
 त्रिता २, २०.
 शशिव- -यम् शि १, २२; ५,
 २८; ६, ५८; १८५; १९३; -ये
 शि २, २१; ३, १४; ४, १४; ४२;
 ४४; ६, २; ४; ६; १३; १८; ३०;
 ५२; ५५; ६७; ६९; ७७; ९७;
 ९८; १०१; १०३; १८०; १९८;
 १९९; २०३; २०४; २०७;
 २१८; २२६; २३७; २३९;
 २४०; २५३; २५८; २६९;
 २७२.
 शिव-कर्मन्- -मंणा शि १, २९.
 शिव-केशव- -वयो: स्क १०.
 शिव-क्षेत्र- -त्रेषु शि ६, १९१.
 शिव-माण- -मै: त्रिवि ५, १२.
 शिव-गावग्री-पर-दक्ष- -मन्त्र-
 -म्राणाम् त्रिवि ७, ४३.
 शिव-गुरु-स्वरूप- -व: ल २४.
 शिव-गृह-स्थ- -स्थेभ्य: शि ६,
 २१०.
 शिव-गृहा(ह-आ)श्रम-
 शिवगृहाश्रमिन्- -मो शि ५,
 २१.
 शिव-गोह- -हे फलि ४०३: १९.
 शिव-गोकुल- -ले शि ६, २७७.
 शिव-गोघो(घ-उ)पयोग(ग-अ)-
 र्थ- -मम् शि ६, २७७.
 शिव-कर- -र: अ ३.
 शिव-चन्द्र-काम-वांशु-हरि- -रय:
 काम १४.
 शिव-जापिन्- -पी शि १, ३६.
 शिव-ज्ञान- -नम् शि १, ३०; ४,
 २९; ३१; ६, १९४; ७, ६१; ६२;
 ७८; -नस्य शि ७, १; ३५.
 शिवज्ञान-महोदधि- -धिम् शि
 ७, १३२.
 शिवज्ञान-विद्- -विद्म् शि १,

३५.
 शिवज्ञान(न-आ)श्रम-हस्त-
 -स्तेन शि ७, ४१.
 शिवज्ञान(न-अ)र्थ-तत्त्व- -ज्ञ-
 -नम् शि ७, ४.
 शिवज्ञानिन्- -नी शि १, ३६.
 शिव-तत्त्व-विद्- -विद्: स ३७२: ३
 शिव-सम, मा- -म: मैत्रि ६, ३१;
 मना १, १२९; -मा नी १, ७९.
 शिव-ता- -ता १संन्या २, ४६; -याम्
 सार २५८: २.
 शिव-तीर्थ- -थम् शि ५, ४७; -थानि
 शि ६, १९४; -थे सिशि ३८१: १५.
 शिव-तुल्य- -स्य: शि ६, ८९.
 शिवतुल्य-वराकम- -म: शि ६,
 १३.
 शिव-वृत्ति- -ति: क २८.
 शिव-स्व- -स्वम् यो २, ९; गुणो
 ४२१: २.
 शिव-दक्षिणतस(>) शि ४, २१.
 शिव-द(>)दा- -दाम् दे १०.
 शिव-दान-
 शिवदान-तस(>) शि ६,
 १०४.
 शिव-वृत्त(>)तीर्थ- -ति व
 ४३१: १५.
 शिव-देव-गृह- -हम् शि ३, ३.
 शिव-धर्म- -मम् शि ७, १२३;
 १३८; ११९; -मस्य शि ६, १६३;
 ७, १३३; -मो: शि १, ५; ७,
 १३६; -मोव् शि १, ३०.
 शिवधर्म-प्रवक्तृ- -क्तृभि: शि ७,
 १३७.
 शिवधर्म-प्रता(त-आ)श्रम-
 -भ्ये-शि ७, १०.
 शिवधर्म(र्म-अ)नन्तो(न्त-उ)-
 अत-गोपुर-द्वारा(र-आ)कार-
 -रै: लि ६, १५.

a) मा १६, ३। b) तैआआ १०, १६। c) तैआ ३, ७, ६, १९। d) मा १६, ४। e) वृ. गण. पृ६६६६।
 f) अ १०, ९, ३। g) तैसं ४, ५, १, १। h) = देवीविशेष-।

शिवधर्मा(म-आ)नन्द-मूर्ति-
घुषमा(म-आ)वलि-लिभिः
सि ६, २५.

शिव-नामन्-मानि भ १, १.

शिव-निरसन-नम् रु २८.

शिव-निर्मात्य-न्यम् इ १५:१८.

शिव-निर्मित-नम् शि ५, २९.

शिव-पञ्चा(क्ष-अ)क्षर-रे रा१५, ३

शिव-पुर-रम् शि १, २९; ४,
५५; ६, ९५; १८२; ७, ९७; -रे
शि ४, ३५; ५, ३०; ६, २७, ५६;
५९; ६४; २१९; २३०; २३४;
२७०; २७३.

शिव-पुस्तक-वाचन-नम् गि ७,
८७.

शिव-पूजक-कैः रुजा १, १५

शिव-पूजा-पथ-ये रु २५.

शिव-पूजा-रत-तः रु २.

शिव-पूर्णा(र्ष-आ)हुति-तिम् शि
४, ५५.

शिव-प्रसाद-दात् सिशि ३८१:३.

शिव-प्रिय-यः श ३६; -याय व
४५६: ८.

शिव-प्रीति-तिः रु २७.

शिव-प्रीक-कम् वानि १८.

शिव-भक्त-क्तः रु ४; शि ५, २१;
६, २२३; -कस्य सिशि ३८३:
५; -क्तानाम् शि ६, २८४, ७, १;
-क्ताय श ३४; शि ६, २००;
२३६; -कस्यः शि ६, ३७; ७,
७८.

शिवभक्त-चाण्डाल-हस्त-
विमुक्ति-तिः रु ६.

शिव-भक्ति-कैः रु ५; -क्तया रु ३.

शिवभक्ति-विहीन-नः रु २.

शिवभक्ति-संपुष्ट-ष्टम् रु ८.

शिव-भरतम्-स्म शि ५, १०;
-हसति शि ५, २४.

शिव-भावित-तः शि ४, ५२; -तैः
शि ३, १.

शिव-भाषित-नम् योशि १, ५१;
१३९; १४४.

शिव-मन्त्र-न्त्रः शि १, १९; -न्त्रम्
शि ७, ६३; -न्त्रेण शि ५, ४५;
६, २२९.

शिव-मय-यः रुक ९; वपं ३१३:
४; कालि ४०१:४.

शिव-महाशान्ति-न्तिम् शि ६,
१६०.

शिव-माला-लाम् शि ६, १६१.

शिव-यज्ञ-ज्ञाय शि ६, २२३.

शिवयज्ञ-महावेदि-द्याम् शि
४, ५७^१.

शिवयज्ञो(ज्ञ-उ)पभोगा(ग-अ)-
र्थ-थंम् शि ६, २८४.

शिव-योग-द्रा-द्रा निर्वा
२९७: ९.

शिवयोग-प्रवृत्त-त्तस्य शि ६,
२१७.

शिवयोग-प्रसिद्धि-द्धये शि ७,
१०२.

शिवयोगिन्-गिनः रु २५; शि
४, ६७; ६, २१९; -गिनाम् शि ६,
२१३; २१५; २२०; २२१;
२५५; -गिने शि ५, ३०; ६,
२१६; २३२-२३५; २५८;
२६७; २६९; -गिभ्यः शि ६, १०;
२३७; २३८; २५७; २६१;
२६३; -गी भा ४३; शि १, ३६;
५, १७.

शिवयोगिन्-गिनः रु २५; शि
४, ६७; ६, २१९; -गिनाम् शि ६,
२१३; २१५; २२०; २२१;
२५५; -गिने शि ५, ३०; ६,
२१६; २३२-२३५; २५८;
२६७; २६९; -गिभ्यः शि ६, १०;
२३७; २३८; २५७; २६१;
२६३; -गी भा ४३; शि १, ३६;
५, १७.

शिवयोगिन्-गिनः रु २५; शि
४, ६७; ६, २१९; -गिनाम् शि ६,
२१३; २१५; २२०; २२१;
२५५; -गिने शि ५, ३०; ६,
२१६; २३२-२३५; २५८;
२६७; २६९; -गिभ्यः शि ६, १०;
२३७; २३८; २५७; २६१;
२६३; -गी भा ४३; शि १, ३६;
५, १७.

शिवयोगिन्-गिनः रु २५; शि
४, ६७; ६, २१९; -गिनाम् शि ६,
२१३; २१५; २२०; २२१;
२५५; -गिने शि ५, ३०; ६,
२१६; २३२-२३५; २५८;
२६७; २६९; -गिभ्यः शि ६, १०;
२३७; २३८; २५७; २६१;
२६३; -गी भा ४३; शि १, ३६;
५, १७.

शिवयोगिन्-गिनः रु २५; शि
४, ६७; ६, २१९; -गिनाम् शि ६,
२१३; २१५; २२०; २२१;
२५५; -गिने शि ५, ३०; ६,
२१६; २३२-२३५; २५८;
२६७; २६९; -गिभ्यः शि ६, १०;
२३७; २३८; २५७; २६१;
२६३; -गी भा ४३; शि १, ३६;
५, १७.

शिवयोगिन्-गिनः रु २५; शि
४, ६७; ६, २१९; -गिनाम् शि ६,
२१३; २१५; २२०; २२१;
२५५; -गिने शि ५, ३०; ६,
२१६; २३२-२३५; २५८;
२६७; २६९; -गिभ्यः शि ६, १०;
२३७; २३८; २५७; २६१;
२६३; -गी भा ४३; शि १, ३६;
५, १७.

शिवयोगिन्-गिनः रु २५; शि
४, ६७; ६, २१९; -गिनाम् शि ६,
२१३; २१५; २२०; २२१;
२५५; -गिने शि ५, ३०; ६,
२१६; २३२-२३५; २५८;
२६७; २६९; -गिभ्यः शि ६, १०;
२३७; २३८; २५७; २६१;
२६३; -गी भा ४३; शि १, ३६;
५, १७.

शिवयोगिन्-गिनः रु २५; शि
४, ६७; ६, २१९; -गिनाम् शि ६,
२१३; २१५; २२०; २२१;
२५५; -गिने शि ५, ३०; ६,
२१६; २३२-२३५; २५८;
२६७; २६९; -गिभ्यः शि ६, १०;
२३७; २३८; २५७; २६१;
२६३; -गी भा ४३; शि १, ३६;
५, १७.

शिवरूपिन्-पी त्रिता १, १५.
शिवरूपिणी-णि व ४३६:
२०.

शिवरूपि-पः रु १५^१; त्रिता
१, ३८; -पाय रुक ८

शिव-रुद्र-रुद्रम् रुद्र ३९.

शिव-लिङ्ग-ङ्गम् भ २, ३; -ङ्गाय
मना २, १६१^१.

शिवलिङ्ग-धर-रम् स ३७९:
१३.

शिवलिङ्ग-रूप-
शिवलिङ्गरूपिन्-विणम्
भ २, २२; २४.

शिवलिङ्गा(ङ्ग-अ)चर्चन्-युत-
तः रु ५.

शिव-लोक-कः-कः शु १०; -कम् शि
२, ३१; ४, २५; ५०; ६, ६०; ६१;
१३२; १६८; १७५; १८४;
१८८; १९१; २१२; २५६; के शि
४, ३६; ४१; ५२; ५, २४; ६, ५;
७; ९; १५; २८; ३२; ३५; ३८;
४८; ५३; ५४; ५७; ६९; ९२;
२१३; २१५; २२७; २३१-२३६;
२३८; २४२; २४४; २४६-२६०;
२६२; २७८; ७, ९४.

शिव-लोक-ज्ञान-नम् शां १,
७, ५२.

शिव-वक्त्र-क्त्रागाम् शि ६, १४१.

शिववक्त्र-योनि-निम् सुसु ७.

शिव-वक्षस-क्षसि वृजा ६, ७.

शिव-वत् शि ७, ५.

शिव-विज्ञाना(न-आ)नन्द-धन-
शैव-धर्म-मूर्ति-तिम् सि ६,
२९.

शिव-विज्ञाना(न-आ)नन्द-सागर-
तीर्थार्थ-आकार-रम् सि
६, २६.

शिव-विद्या-द्या शि १, ३३.

a) घाः इति पा. ? वनि. शोधः द्र. । b) समासान्तः अक्ष प्र. वसं. (पा ५, ४, ८७) । c) तस. । d) वस. ।

शिवविद्या(वा-अ)र्थ- -यम् शि
१, ३३.
शिव-वेदि- -दिम् शि ३, ५.
शिव-यैषुष्ठ- -ष्ठः राधा १, १०.
शिव-मत- -तम् शि ५, १२.
शिवमत-धर- -रम् शि ७, ७२.
शिव-शक्ति- -क्तिव्याम् शृजा २, ९.
शिवशक्ति-निवेतन- -नम् योशि
१, १६७.
शिवशक्ति-पदा(द-आ)स्पद-
-दः शृजा २, ८.
शिवशक्तियन्त्रशिवः^१ ह्यु १८.
शिवशक्ति-भय- -यम् योशि २, ५
शिवशक्ति-योग- -गात् त्रिता
१, १२.
शिवशक्ति-समायोग- -ने योशि
१, ११७.
शिवशक्ति-संपुष्टि-प्रपद्य-
-ष्टेदन- -नम् निर्वा २९८: १.
शिवशक्तय(कि-अ)सृष्ट-स्पष्ट-
-ष्टौ शृजा २, १४.
शिवशक्तया(कि-आ)लय-
-यम् त्रिता १, ६३^{१७}.
शिवशक्तया(कि-आ)मक- -कः
सुमु १९; -कम् पाशु २, ४^०; त्रिता
१, ४१.
शिवशक्त्यात्मिका- -काम्
त्रिता २, २३.
शिव-शब्द- -ब्दम् शि ३८१: ५.
शिव-शान्ति-गृह-द्वय- -यम् शि
३, १.
शिव-दो(प>)वा- -वा शि ६, १७१.
शिव-संस्कार- -स्वम् १शिशं
१-६९^०; २शिशं १९^०; २; ३९^०;
४९^०; ५९^०; ६९^०; ७; ८९^०;
९-१२; १३९^०; १४-३७.

शिव-सद्म- -हात् शि ३८१:
१०.
शिव-सप्रा(प्र-अ)र्थ- -र्थम् शि ६,
११९.
शिव-समाधय- -यात् शि ६, ४२.
शिव-संम्रीति- -स्या योच् ४३;
-र्यै यो १, ४.
शिव-मायुज्य- -ज्यम् शृजा ७, २;
७; शाला २१; श ३६; हजा ३,
१; चि १; स ३८०: २.
शिवसायुज्य-मुक्ति-भाज्-
-भाजः शु २, ५.
शिव-सुत- -ताय ग १५.
शिव-सूर्य(यै-इ)न्दु-रूप-
शिवसूर्यन्दुरूप-वत्- -वार रार
५, ७.
शिव-स्थण्डिल- -लम् शि ३, ७.
शिव-स्थान- -रम् शि ४, ५७; -ने
शि ७, १२८.
शिव-स्नान- -नम् शि ५, १३.
शिव-स्वरूप- -पः ता ३, ३; ८;
-यम् लि ३ १०: ११.
शिव(व-आ)गम^{१८}- -मे शि १, १४.
शिव(व-आ)गार- -रम् भ २, १८.
शिव(व-आ)ग्नि- -ग्निना शृजा २, १६;
-मोः शि ४, ६६; -म्री शि ४, ३४.
शिवानि-भूम-संस्त्रष्ट- -ष्टः शि
४, ५६.
शिवान्या(शि-आ)यतन- -नम्
शि ४, ११.
शिव(व-आ)ग्नि-होत्र- -कुण्ड-
-यडम् शि ४, ८.
शिव(व-आ)ग्नि-होत्र- -क्षरण-
-णम् शि ४, १; १२.
शिव(व-आ)मज- -जेभ्यः शि ६,
५७^१.

शिव(व-अ)मतस(>) शि ६,
३७.
शिव(व-आ)घार- -रः शि ७, १०२:
-रम् शि ७, १.
शिव(व-अ)प्युता(त-अ)म्भोरुद-
गर्भम्-घर- -रम् नाप ९,
१७^५.
शिव(व-आ)शा- -श्या हजा १, ८.
शिव(व-आ)मक- -कः त्रिता २,
११; -कम् योशि १, ११५; सुम्,
२, ५६; शि १, २२; ६, २४७;
२५०; -कः ख ४.
शिव(व-आ)रुमै(म-रे)कयो-
(कय-उ)पासक- -काः शि ४,
११.
शिव(व-आ)दि-शक्तय(कि-अ)-
न्तराल-भू(त>)वा- -ताम्
त्रिता २, २४.
शिव(व-आ)घ-काम(>)मा- -मा
त्रिता १, ६४^०.
शिव(व-आ)द्वैतो(त-उ)पासक-
-काः शि ४, २०; ६, ३६.
शिव(व-अ)धस्तात् त्रिता १, ४७.
शिव(व-आ)रन्द^{१९}-
शिवानन्द-मय-
शिवानन्दमय-दिव्य-ना-
नालोलाविप्रहविलासविलासि-
तानन्दाविर्भाव-चरित्र-चित्री-
कृत-चित्र^{२०}- -प्रैः शि ६, २३.
शिव(व-आ)रन्द^{१९}-
शिवानन्द-नाम्दितेन-शान-
रावणा(प-आ)दय(दि-आ)-
नन्त-नावगणा(ग-अ)नन्ता-
नन्द-सूर्ति^{२१}- -र्तिम् शि ६, ३०.
शिव(व-आ)न्त- -न्ते पी ४२१: ८.
शिव(व-अ)सृष्ट- -सृष्टम् शि ६, ३६.

a) पा. वा १। b) सकृत् °क्यामम् इति अथ्या. संटि.। c) °यत्स्वामकम् इति अथ्या. संटि.। d) मा ३४, १-६।
e) मा ३४, ४। f) मा ३४, २। g) मा ३४, ३। h) मा ३४, ६। i) मा ३४, ५। j) मा ३४, १। k) मा १७, १। l) °जस्वै-
भ्यः इति पा.। यनि. व 'तु' इति व द्विपदः शोषः द.। m) वैठु. अथ्या. संटि. विप्रहन्तरम्। n) °वा का° इति अथ्या.
संटि.। o) वस.। p) कस.>वस. >वस.। q) वस.। r) °नात्तामया° इति पा.। यनि. शोषः द.। s) कस.+कस.>वस.।

शिवा(व-आ)यत्न-पुण्य- -ण्यस्य
 शि ६, ११०.
 शिवा(व-आ)यत्न-वित्त- -त्तानाम्
 शि ६, २४३.
 शिवा(व-अ)र्थ-
 शिवार्थिन्- -र्थिनाम् शि ७,
 १३८.
 शिवा(व-आ)लय- -यम् योशि १,
 १६८; शि ४, २०; सि ६, २३;
 -ये २शिसं २५; सि २, १; ४, ३.
 शिवालय-स्थ- -स्थम् ब्रजा ३,
 ३४.
 शिवा(व-आ)लोकन-संमुख- -खम्
 शि ४, १७.
 शिवा(व-आ)श्रम- -मे शि ६, ५५;
 १३०; १३१.
 शिवाश्रमो(म-उ)पभोग- -गाय
 शि ६, २४१.
 शिवा(व-आ)सन्न- -साः शि ६,
 १८७.
 शिवी/मू
 शिवी-भूत- -त्तम् शि ७, ८२.
 शिवै(व-ए)कादशिका- -काम् शि
 ५, ३३.
 शिवैकादशिका-जस- -सम् शि
 ५, १०.
 शिवो(व-उ)पनिषद्- -पद्म् शि १,
 ८; ७, १४०; -पदि शि १, १९
 शिवो(व-उ)पासक- -काः सार
 २३५; ४.
 शिवो(व-उ)मा- -माम् शि ६, २२४.
 शिवोमा-समय- -यम् वपू २, २.
 शिवोमा-दीर्घ-संभोग- -गात्
 शि ५, ४८.
 शिवोमा-सुव- -त्तः वपू २, ३१.

शिवोमा-रामचन्द्र- -न्द्रः रार
 २, ३१.
 शिवो(व-उ)मा-राम-मन्त्र-
 -न्त्रः रार २, ३०.
 शिवो(व-उ)मा-स्कन्द-नामन्-
 -मभिः शि ४, ३९.
 शिशि(व^०)वा^१- -वाः छाग २५:१४.
 शिशिर^{११b}- -रः गार ४०८:९; -रम्,
 -रे अशि ६, १४; वटु ३१७:२१.
 शिश्रियाण- /श्रि द.
 शिशु^०-
 शैशव- -वम्, -वे महा ३, ३३.
 शिशु^{११d}- -शुः वृ २, २; १९^{११}; -शुम्
 वृ २, २, १; सुवा ९.
 शिश्र^{११०}- -श्रम् ऐ १-२, ४; -श्रा मना
 २, ३१९^{११}; ३२९^{११}; -श्राव ऐ १, ४;
 -श्रे लु ७; -श्रेन ऐ ३, ९^{११}; ११.
 शिश-कृत- -त्तम् ब्रजा ४, ३४.
 शिशा(श-आ)भ- -भे हं ६.
 शिशो(श-उ)दर-परायण- -णाः
 भव १, ५७.
 /शिप्, शिष्यत्वे १संन्या २, २८; अन्न
 १, ४४; ५, ६३; व१५; शिष्यति
 पै ३, ४; यो ३, ३५.
 शिश- -ष्टम् मैत्रे २, २८; रार २,
 ५३; अन्न १, ४६; ५, १०४; वरा
 ४, १९; -ष्टेन रार ३, १.
 शिष्टा(ष्ट-अ)हंकार-
 शिष्टाहंकार-वत्- -वान् महा
 ५, ९४.
 शोष^०- -पः तै ३, ३५; अन्न १,
 ४५; ५, १७; अक्षि १०; त्रिता ५,
 ५; शि ४, २३; अवि ५; -पम्
 आठ १; रार २, ४०; ४९; ५१;
 १०२; त्रिता २, १४; -पस्य भ

१, ६; सौ १, १; -पाः मैथ, ४, ८;
 मैत्रि ६, ३४^१; महा ३, १४; योशि
 ६, १८; -पाणि सांका ३४; -पात्
 आध्र ३; -पे महा ६, २३.
 शेष-कर्म-सिद्धय(क्षि-अ)र्थ-
 -र्थम् नाप ४, ३८^१.
 शेष-त्व- -त्वात् वस ३, ४, २.
 शेष-भस्मन्- -स्मनि वपे ३१२:
 २३.
 शेष-स्थ- -स्थः महा ६, २८.
 शेष-स्थिर-समाधान- -नः महा
 ६, ९; सु २, २, ७१.
 शेष-
 शेषा^१- -पाम् शि ६, १६०;
 १६८-१७०.
 शिशि- /शाम् द.
 शिशि- /शिप् द.
 शिशि- शिष्य- /शाम् द.
 /शी, अक्षयत् छां ३, १९, १.
 शेते छां २, १३, १^१; वृ २, १,
 १७; १९^१; ३, २, ११; ४, ४, ७;
 २३; अशि ६, १३^१; कौ २, १५^१; १;
 नाप ३, ४१; त्रिवा २, १७; ४२;
 वटु ३१७: १९; वपू २, ३; शैरते
 नी २, २३^१; शमीत् वृ २, १,
 १९; ४, ४, ७; शि ५, १८.
 शिष्ये कौ २, १४^१; ४, १८;
 शयिता क १, १, ११; अक्षयिष्ट
 कौ ४, १८; १९; छाग २४:१६.
 शयन- -नम् रार २, १^०; शि ७,
 ८७; १०; यो १^१; -नात् सार
 २३४: १८; -ने शि ७, ७.
 शयान- -नः क १, २, २१; ऐ ४,
 ५; कुं २८; शि ७, १६; -नम्
 आर्वे ९: १९; शि ७, ३१.
 शयित्वा छां ५, ९, १.

a) व्यु. = मृगाल- । b) व्यु. अर्घरंशु । c) वैपरी यद. । d) व्यु. = नम्यम-प्राण- । e) व्यु. = मृतेन्द्रिय- ।
 पैपरी यद. । f) तैमा १०, २४, १ । g) तैमा १०, २५, १ । h) भाप. = अक्षयिष्ट- । i) उत्तरेश संघिरायेः । ष्यः इति
 शात. । j) = निर्माश्य- । k) 'शयते' इति JC. । l) इयेत? इति निसा., अान. (तु. नादी. इयेतः), इतः इति अस्या.
 च यनि. शोषः द. (तु. शांसा ४, १५; JC.) । m) मा १३, ७ । n) ष्ये इति निमा. इ यनि. शोषः द. (तु. शांसा ४,
 १४) । o) = आहार-शोषार- ।

शा(व्य>)व्या^१ - व्या १सिन्या २, १९; सार २६३: २३; २६६: १६; -व्या: सार २२२: २३; २३७: १४; २६६: १२; २६७: ८; -व्याम् सार २२९: ५; ८; २६८: १९; शि ७, ९१.
 शव्या-गृह-हम् सार २२८: ८.
 शव्या-भोजन-श्रद्धार-रा: सार २२३: १३; १६; -रै: सार २३६: १२.
 शव्या-मन्दिर-रम् सार २६५: २२.
 शव्या(ध्या-आ)सव-समायुक्त-कम् शि ४, २११.
 शव्या-मुत्त-सम् सार २८४: २३.
 शव्यो(व्या-उ)पवा(त>)ता^१-ता सार २६३: ७.
 शव्यो(व्या-उ)पकरण^१-यानि सार २३७: ८; २६२: १६; २८३: १७; २८४: १८^१.
 शव्यो(व्या-उ)पकरण>)जा^१-जा सार २८२: ९.
 शीक्षा- ✓शिच् द्र.
 शीर्ष^१-ध्रम् मैत्रि २, १; अत्रि १९; अत्र ४, ७३; यो १, ५७; ६७; २, ४४; गह ५; शि ७, १२०.
 शीत- ✓रथै द्र.
 शीघे- ✓शु द्र.
 शीर्ष^१-रै: सार ४०६: ८; -र्यम् अशि ३, १; व २१: १६; वड ३१५: १; -वाणि सार ४०६: २-४; -र्ये मना २, १२, २१^१; १अव ४; दसा १, ५; ७; शौ ५३: १५१^१; शिशि ३८१: १३.

शीर्ष-क-के वृजा ४, १८; २८.
 शीर्ष-कपाल-कम् सुवा १११^१; -ले ते १, ९, १.
 शीर्ष-तप्त(>१) अशि ६, ७.
 शीर्षो(र्ष-ज)त्तरं-गत-मण्डल-मध्य-ग-गम् यं १, ४, १.
 शीर्षो(र्ष-उ)दिवा(त-अ)नल-हर-रम् यो १, २८^१.
 शीर्षो(र्ष-उ)परिमं १, १०; अताद.
 शीर्षम्^१-व्यं: वउ ३, ५०; -र्यां व २, ५, १६१^१; -र्यां व ८.
 शीर्षण-श्वे को १, ५११^१.
 ✓शीर्ल^१(*वपा.)
 शीर्ल^१-लम् गप ४, २.
 शुक^१-क सार २२६: १६; २२७: २३; -क: सार २२६: १९; १७; २२७: १; २८८: ३; २१; -कम् शि ६, २०८; -केन सार २२६: १३; १५; -केयु सुता २, १११^१.
 शुक-वास,सा-सम् शि २, १०; -साम् शि २, ११.
 शुक-विक-यूय-यानि सार २८८: १
 शुक-यूय-यानि सार २८२: ६.
 शुक-वय गां ४, २६.
 शुक-वाणी-गीम् रा ४२४: २३.
 शुक-वारिका-का: सार २८८: १.
 शुकवारिका-मिथुन-रम् सार २८८: ५.
 शुक-इयाम(ल>)ला^१-ला व २१.
 शुक^१-क शु १, १२; ३, १६; महा २, ७३; -क: शु १, ८; महा २, १; १२; १७; २०; २१; २७; ७४; रुह २; वरा ४, ३४; ३६^१; तुल ७१: २२; -कम् महा २, २३; २५; २८; रुह ३; गार

४०७: १३; -कव्य शु १, २; महा २, २२; -काय तुल ७१: २२.
 शुक-देव^१-शुकदेव-वामदेवा(व-आ)दि-जीवन्-शुक-कानाम् म ४२: १०.
 शुक-मार्य-गम् वरा ४, ३४^१; -गै वरा ४, ३८.
 शुक-वय गां ४, २६.
 शुक(क-आ)दि-व्य: ते १, ४७; -दिनि: सु १, १, २.
 शुक(क-आ)घ-यै: द ५; १०.
 शुकस्वर-र: मैत्रि ३, ५१^१.
 शुक्ति^१-कौ योशि ४, १३; १४.
 शुक्ति(क>)का^१-का योशि ४, २३; -कापा: (श्याम्^१) वरा ३, १५; -कापाम् यो १, ८०.
 शुक्तिका-रजत-रम् ते ६, ७६.
 शुक्ति-मात्र-रस-सव्य शि ६, २७.
 शुक्त्या(कि-आ)दि-दीनि शि ६, २६२.
 शुक-१-२शुक- ✓शुच्(*वपा.) द्र.
 शुक^१-द्रुच् छा ६, ८, ३; -नेन छा ६, ८, ४, ६^१.
 शुक^१-शो(क>)की-शोकी-शुच^१-श: -वात् वृ ६, ५, २.
 ✓शुच्(शोके), >शोचि, शोचते महा २, ५७; शोचति क३, २, २२; २, १, ४; २, १; ३, ६३; सुं ३, १, २; छां ६, २, ३; वृ १, ५, १९; शेष ७; यौ १, २८; सुवा ३; गप ९, १५; महा ५, २६; ६, ६४;

a) वस. । b) व्योक्^१ इति पा. १ यनि. शोच. द्र. । c) वैश १ यद. । d) वा. क्विचि. द्र. । e) श्र ४, ५८, २ । f) °तानिल^१ इति अज्या. संटि. । g) श्र १, ११६, १२ । h) °वयम् इति निसा. अज्या. च पा. १ यनि. शोच: द्र. [उ. आन., वे., शांभा. (३, ५), ज १] । i) भा. अर्थ: १ । j) व्यु: १ = पक्षिनिशेष- । वैश १ यद. । k) श्र १, ५०, १२ । l) व्यु: १ = अथि-विशेष- । m) °कं मां इति अज्या. । n) शा. १ 'शुक: रस:' इति द्विपद: शोच: द्र. (वैतु. 'शुक: स्वर:' इति सात.) । o) व्यु: १ । p) निसा. पा. १ यनि. शोच: द्र. (तु. अज्या.) । q) व्यु: १ = शुक-अक्षर- । r) व्यु: १ = गोत्रभवर्तक-प्रापिनिशेष- ।

अञ्ज ४, ३४; ५, ९१; ९४; वृद्ध
४६; म २, २५; जाद ४, ६२;
गी १२, १७; १८, ५४; शोचन्ति
वृ १, ५, २०; शोचामि छां ७,
१, ३.
शुचः राउ ३, ६; गी १६, ५;
१८, ६६; शोचीः शां २, १.

शोच्यते महा ३, १२.

शुच्-शुक्त्रम् १, ३, ३४.

शोक-कः ई ७; छां ८, ४, १; मै
३, ५; मैत्रि ३, ५; १योत १२;
नाप ९, १२५; महा ६, १३;
योशि १, १०; वरा ४, ४३५; -कम्
मुं ३, २, ९; छां ७, १, ३; वृ ३,
५, १; दे १०; म २, ८; २०; गी
२, ८; १८, ३५; -कस्य छां ७, १,
३; शां २, १; -काः इ १८: ७;
-कान् वृ ४, ३, २२; -के योशि ६,
६८; -केन वृजा ६, १.
शोक-भय-यम् २प्र३६: ७.
शोक-मोह-हौ ससा ६; वरा
१, ९.

शोकमोह-विनिर्मुक्त-कम्
आनो १.

शोक-मोह-भय-वैराग्य-दुःख-
नादा-हेतु-तत्वे सार २६१:
१२.

शोक-मोह-भयो(य-उ)द्वेग-
रहित-ताः सार २३५: २१.

शोक-वर्जित-तः योशि १, २६.

शोक-संविन्न-मानस-सः गी
१, २७.

शोक-स्वप्न-सहस्र-स्यामि
भय १, ९.

शोक-हृष-पौ नाप ४, १०.

शोक-हीन-नः मैत्रे ३, ३.

शोका(क-अ)तिग-नाः क १,
१, १२; १८.

शोका(क-अ)न्तर-रम् वृ ४, ३,
२१.

शोका(क-अ)र्त-तः शिउ, ५७.

शोका(क-अ)वह-हम् नाप ३,
६७.

शोचिदुम् गी २, २६; २७; ३०.

शोच्य-च्यः महा ३, २७.

√शुच्(बधा.)

शुक्-कः मैत्रि ७, ३; ९; त्रिवि १०४;

मवा ११; गु ५२; वृ ३७: १५५; १६;

४६२: २; -कम् ई ८; व २, २, ८;

३, १; १७; मुं ३, २, १; वृ ४, ३,

११. खे ४, २५; मैत्रि ६, २४; ३५;

गर्भ २; मना १, २५; २प्र३३: ९;

सौ ५२: ९; शि ७, १०७; -क्राय

व ४३७: १६; -क्रेण मना १, १५.

शुक-कुदव-वम् गर्भ ५६.

शुक-विन्दु-न्दुः शि ७, १०६.

शुक-वृहस्पति-ती - गार

४०८: ७.

शुक-भिन्न-क्षेन निह १, ७.

शुक-वार-रे रा ४२३: ११;

२१; ४२४: १८.

शुकवार-यु(क)>का-

-कायाम् रा ४२४: १०; १३.

शुकवार-यु(त)>ता-

-तायाम् रा ४२४: १; ६.

शुक-वासर-यु(क)>का-

-कायाम् रा ४२५: ५; १४; १६;

१७; १९.

शुक-शोणित-संयोग-गात्र

गर्भ २; निह १, ७.

शुका(क-अ)तिरेक-के निह

१, ६

१शुक^h-

२शुक, छा¹-कलः प्र १, १२;

छां ८, ६, १; वृ ६, ४, १४; गर्भ

२; ध्या १३; योचू ७५; २प्र ३५;

४; गी ८, २४; -कलम् छां १, ६,

५; ६; ७, ४; ३, २, ३; ६, ४, १-४;

६; वृ २, २, ३; ४, ४, ९; मैत्रि ६,

३५; अशि २, ०८: ३, १२; ४,

९; १०; तै ४, २५; ध्या ८७;

२०; १योत ८८; योचू ६०;

६१; ६४; यो १, ७२; ७५; १८;

वृ ३१४: १५; ३१५: १२;

३१६: ३; काम ६; व ३, ९;

-कलस्य छां ८, ६, १; वृ ४, ३, २०;

कौ ४, १९; -कला अ १; -कलामि

वृ ६, ५, ३; शि ६, २५८; -कलाम्

वृ ९, १; -कले प्र १, १२; वृजा ३, ४.

शुकल-कृष्ण-व्ये गी ८, २६.

शुकल-तेजस-

शुकलतेजो-मय-यम्

अता १०.

शुकल-दन्त-न्तः वृजा ३,

२४.

शुक-ध्यान-परायण-गः

जा ६; नाप ३, ८६; ५५ ४१९:

१७; -गाः मि १२.

शुक-पट-

शुकपट-वत् मां १, १०.

शुक-भास्वर-रम् मं २,

१, ५.

शुकल-माल्या(त्य-अ)मुले-

पन-नः वृजा ३, २३.

शुकल-भोचन-कानि(व>)-

णी-णी योशि ५, २७.

शुकल-भुवैद-ग(त>)ता-

-तानाम् मु १, २, ३.

a) मा ४७, ७। b) बप्रा. वैप १ यद.। इह = आचार्यविशेष-, २प्रह-, रेतस्-, दिन-प्रम्.। c) अ १, ६९, १।
d) मा ३२, १। e) कम् इति अस्या.। f) तेषां १०, १, १। g) कं कुं इति अस्या., कं कुडपम् इति अस्या.।
h) = वर्णविशेष-। i) = वर्णविशेषवत्-, रेतस्-। j) कम् इति निगा.। k) क्रे इति अस्या.। l) शुक् इति
निगा. मैत्रि.।

शुक्ल-यज्ञोपवीत-
 शुक्लयज्ञोपवीतम्-
 -वी वृजा ३, २३.
 शुक्ल-वस्त्र- -स्त्रम् नाप
 ३, ७१.
 शुक्लवस्त्र-क- -कम्
 १संन्या २, ८७.
 शुक्लवस्त्रो(स्त्र-उ)प-
 वीत-
 शुक्लवस्त्रोपवीत-
 वत्- -वान् शि ७, ४३.
 शुक्ल-वातस- -साः सि ६,
 १६२.
 शुक्लाः(क-आ)म्क- -कम्
 योशि ५, २८.
 शुक्ला(कल-आ)भ- -भः
 वृजा ६, ९.
 शुक्लो(क-उ)स्सर्ग- -र्गः
 १संन्या २, ८८.
 शुचि- -चि योरा १३; -चिः क १,
 ३, ८; मैत्रि ६, ३०; जा ५; कै १,
 ५; मना २, ७६१; अशि ७, ८;
 वृजा ३, ५; ते ३, ४९; ५, २०;
 नाप ७; योचू ८८; अता १४;
 २२४, २; वृजा २, ९; जाद ६,
 १६; कलि ३; या २, १; लौ १,
 १; चा १२; द्र ५; शि ५, ४१;
 ६, १६२; शिशि ३८१; ११; व
 ४५९; १; गी १२, १६; -चिम्
 मैत्रि ६, ३५१; मन्त्रि १; चू ११;
 -चीनाम् गी ६, ४१; -चो छं ८,
 १५, १; खे २, १०; मैत्रि ६, ३०;
 नाप ४, १८; मुद्र ४, ३; जाद ५, ४;
 सूता १, २४; भव ३, २३; गी ६, ११.
 शौच- -चम् मैत्रि २, ३; ९;

नाप ३, २१; २४; वित्रा २, ३३;
 स्क १११; शां १, ११; पै ४,
 १८; शारी १; कुं १२; कठ ३;
 जाद १, ६; २०; २१; वरा ५,
 १३; सु २, २, ६७; इ १५; २१;
 शि ५, ४४; ७, १००; भव ३,
 २२; ५, १२; २१; कशु ३, ३;
 गी १३, ७; १६, ३; ७; १७, १४;
 १८, ४२; -चाण योसू २, ४०; -चे
 भव ३, २०.
 शौच-पीत-वस्त्र- -चाणि
 शि ६, २५५.
 शौच-संशोष-तपः-स्वा-
 ध्याये(य-ई)दवरमधिधान-
 -नानि योसू २, ३२.
 शौचा(च-आ)दिक-
 -कम् म २, २.
 √शौचि, शौचयेत् शि
 ७, ४९.
 शुचि-ता- -ताम् कलि ३.
 शुचि-रूप- -पः अक्षि १; चा १२,
 १३; १४; वरा २, ५३; सु २, २,
 ७४; वृष ८५; १७; गा २८१; २,
 मना २, १२, २; २, ४०; वृष
 ३, ६; नाप ५, १; वित्रा ४, २६;
 वपू २, ३.
 शुचि-स्मि(त)ता- -ता वृजा
 ६, १; -ते वृ ६, १.
 शुशुक्ल- -काम् व ४३७; १५१.
 शौचित- -तम् २ वीत २, १.
 शुच- √शुचि(शोके) द्र.
 शुटी-
 शुब्धा(टी-आ)व- -घेः सार २४४;
 ११.
 शुतुद्री- -द्रि मना १, १३१.
 √शुभ्र, >शोधि, शुभ्रयेत् शि ५, ३८;

शुभ्रयति जाद ४, ५४; भव ३,
 १८; शुभ्रयति भव ३, १८; १९;
 शुभ्रयताम् मना २, ६६१; ११;
 शुभ्रयताम् मना २, ६५१;
 ६६१; शुभ्रयेत् शा २६.
 शोभयेत् मै ४, ४, ३; मैत्रि ६,
 ३४; मैत्रे १, ४, ५; वृजा ३, ८;
 रापू ५, १; योशि ५, ३; वरा
 ३, २१; चा ३; शि ४, २३.
 शुभ्र, द्वा- -द्वाः छां ५, १०, १०; वृ
 ५, १४, ८; मै २, ४; ११; मैत्रि २,
 ४; ७; २, २; ३; १; ३; ८; ७, १; ६;
 मैत्रे १, ४, ११; ३, २; ६; हं २१;
 ना २; वृष ३, ७; ९, ८; १०; सुभा
 ८; ससा ४; ते ३, ४२; मवि १०४;
 आबो ९; १०; वित्रा १, २; विधि
 १, ११; २, १६; महा ५, १०४;
 अक्ष ५, ९३; अध्या ३; ६२;
 १आ १; २आ ३; १अव ६; म
 १, ९; जाद १, २०; ४, ५५; ५,
 १३; १४; वरा २, ५३; सु २, २,
 ७४; वृष ८५; १७; गा २८१; २,
 शि ४, १; ५, ४५; ६, १८२; वर
 २, २; ३; २५; ५, ४९; भव २, ३०;
 योसू २, २०; -दम् ई ८; क २,
 १, १५; वृ ५, ५, २; गी ४, ८७;
 मै ४, ५, ६; मैत्रि ६, ३४; मवि
 १; कै २, ५; वृष ९, १७; सुभा
 ८; मि १४; सु २, ५; ते १, ४९;
 ५, १३; ६, ३७; ७०; नाद १७;
 योचू ७२; महा ४, ४२; ५, १७२;
 योशि २, १७; अक्ष ४, २; अक्षि
 ४८; अध्या ६३; १आ ३; वित्रा
 ५, २; कठ ३७; ३८; भं १, ५;
 जाद ६, १६; २७; ७, ३; शि ६,

a) कस. 1) b) उप. =श्वास-। c) °क्रो इति आध्या. 1) d) ऋ २, १, ११ e) ष्वि इति पा. ३ यनि.
 शोचः द्र. 1) f) ष्विः इति पा. १ यनि. शोचः द्र. 1) g) ऋ ४, ४०, ५१ h) ऋ १, ६९, ११ i) धा. द्रवणे इतिः 1) j) व्यु. १
 =भूपगविशेष-। k) वैप १ यद्र. 1) l) ऋ १०, ७५, ५१ m) °प्यन्ताम् इति पा. ३ (द्र. तैआशा १०, ६६) यनि.
 शोचः द्र. 1) m) तैआ १०, ५१-५४, १; ६०, ११ o) तैआ १०, ५५-५७, ११ p) °रूपो इति निसा. संदि. 1) q) सम्यग्
 विशुं इति पा. ३ यनि. च 'संन्याय' इति च द्विपदः शोचः द्र. (द्र. वृ ५, १४, c) ।

२८; ४८; ९७; हे १४; वज २,
३१; ३, १०; भव २, ५६; ४, १९;
अवि १^१; -द्धस्य सांस् ३, २९;
-द्धा अशि ५, १३; १संन्या २,
२४; ४३; अक्ष ५, ६; ५५; मु २,
२, ६१^१; व ६; ७; -द्धा: १योचू
९८; शां १, ३, १२; १, ४; ७, १;
भ २, ३०; -द्धाम् अक्ष ४, ९०;
दे १०; -द्धाय गोपू ४२; -द्धे क
२, १, १५; नाप ३, ३९; महा ४,
१२; ५, ३०; योशि १, ६५; जाद
६, १६; वरा ४, ६; पाशु २, ३७^१;
वज ५, ४५; -द्धेन मगा १, ११^१;
त्रिवि ७, ४१^१; म १, ५; मु २, २,
३; छ २९३: १४; -द्धै: काम
१९.
शुद्ध-चित्त- -त्ता: शा ११;
-त्तानाम् ते १, ४९.
शुद्ध-चिद्-आनन्द-प्रह्ल-विला-
सा(स-आ)नन्द- -न्दा: त्रिवि
८, ४.
शुद्ध-चिद्-रूप- -प: पै ४, ९.
शुद्धचिद्रूपो(प-उ)पासन-
रत- -ता: शा ११.
शुद्ध-चेतन- -न: १संन्या २, २०.
शुद्ध-चेतस- -त्तस: दे १२.
शुद्ध-चैतन्य- -न्यम् ते ४, २;
पं ३४.
शुद्धचैतन्य-भाव- -व: ते ६,
६४.
शुद्धचैतन्य-रूपा(प-आ)-
त्मन्- -रमा ते ४, ६.
शुद्धचैतन्या(न्य-आत्मक->
मिका- -का शां १, ११.
शुद्ध-जल- -लेन का ५.
शुद्ध-ज्ञाना(न-अ)मृत- -रम्
प्रवि ४६.

शुद्ध-ताप- -पम् त्रिवि १५^०.
शुद्ध-तृ(ष्णा)>ष्ण- -ष्णा: महा
६, ५९.
शुद्ध-देश- -शे म १, ४.
शुद्ध-देह-
शुद्धदेहिन्- -ही सिशि ३८१:
१२.
शुद्ध-धी- -धी: महा ६, ६८;
६९.
शुद्ध-पक्ष- -क्षे कौ २, ३.
शुद्ध-पुण्ड्र- -ण्ड्रे सिशि ३८३: ८.
शुद्ध-बुद्ध- -द्धाय नाउ २, ९.
शुद्ध-बुद्ध-परमानन्द-परमशिव-
स्वरूप- -प: सिशि ३८२: १५.
शुद्ध-बुद्ध-मुक्त-सत्या(त्य-आ)-
नन्द-स्वरूप-
शुद्धबुद्धमुक्तसत्यानन्दस्व-
रूपत्व- -त्वात् त्रिवि ३, २.
शुद्ध-बुद्ध-स्वरूप- -पम् त्रिवि
७, २.
शुद्ध-बुद्धि-
शुद्धबुद्धि-मत्- -मान् राप्
४, ४२^१.
शुद्ध-बोध-
शुद्धबोध-घन-विशेष- -पम्
त्रिवि ७, २०.
शुद्धबोध-परमानन्दा-
(न्द-आ)कार-वन- -नम्
त्रिवि ६, २३^०; सि ६, ३४.
शुद्धबोध-मय-
शुद्धबोधमया(य-अ)-
नन्त-आसाद- -दै: सि २, ६.
शुद्धबोध-विमाना(न-आ)-
वलि- -लिभि: त्रिवि ६, २०.
शुद्धबोध-सौधा(ध-आ)-
वलि-विशेष- -पै: त्रिवि ७,
१९.

शुद्धबोधो(ध-आ)नन्द-
शुद्धबोधानन्द-मय-
-यान् त्रिवि ६, ३३.
शुद्धबोधानन्दमया-
(य-अ)मृत-निरतिशयानन्द-
तेजोराइया(शि-आ)कार- -र:
त्रिवि ८, ५.
शुद्धबोधानन्द-लक्षण-
-णम् त्रिवि १, ११; ५, १४; सि
१, ११.
शुद्धबोधानन्दलक्षण-
कैवल्य- -त्यम् त्रिवि ४, १.
शुद्धबोधानन्द-विभूति-
विशेष- -पम् त्रिवि ७, १७.
शुद्धबोधानन्द-विशेषा-
(प-आ)कार- -रम् त्रिवि ४, १.
शुद्धबोधानन्द-वैकुण्ठ-
-ण्ठम् त्रिवि ६, २३.
शुद्ध-महान्- -क्ष मैत्रे ३, ९^१.
शुद्धमहल-तेजस-
शुद्धमहलतेजो-मय- -यम्
त्रिवि ७, ४९.
शुद्ध-भाव- -व: शि ५, ४३.
शुद्ध-मानस- -स: जा ६; नाप
३, ८६; पै ४, ९; पप ४१९: ५;
-सा: मि १५; या २, १.
शुद्ध-मुक्ताफल-वर्ण- -णै: वृजा
६, ९.
शुद्ध-मोक्ष-स्वरूप-
शुद्धमोक्षस्वरूप-वत्- -वान्
ते ३, ३०.
शुद्ध-रूप- -प: ते ३, ५.
शुद्ध-वासन- -ना: महा २, ४०.
शुद्ध-शेष-भोगा(ग-आ)सन-
-नम् त्रिवि ५, १४^१.
शुद्ध-शौच- -चम् मैत्रे २, ९.
शुद्ध-श्लेष-द्रवा(व-आ)त्मक-
-कम् यो १, ७१.

a) वृ. गण. ५३०५।। b) तैसा ३, १२, ३, ४। c) °द्धतस्वम् इति अस्या। d) बुद्धिबुद्धि° इति
अस्या।। e) °न्दानन्दाका° इति निता। f) °द्धं म° इति अस्या। g) वृ. गण. ५७८१।। h) °वोभो° इति अस्या।
वनि. शोध: द्र: (वृ. निता.)।

शुद्ध-संविद्ध-
 शुद्धसंविद्ध-सय-
 शुद्धसंविद्धमया(य-आ)-
 नन्द-स्व(प>)पा-पा अक्ष ५,
 ८३३.
 शुद्ध-सत्त्व^b- श्वे त्रिन्ना २,
 १६४; २अव ३३८: ६.
 शुद्धसत्त्व-प्रधा(न>)ना-
 नायाम् सर ३, १४.
 शुद्धसत्त्वा(त्व-अ)नुपाति-
 (न>)नी-नी १संन्या २, ४४.
 शुद्धसत्त्वा(त्व-अ)नुभावन-
 नः ते ६, ६४.
 शुद्ध-सत्त्व^c- ००त्त्व अक्ष ५;
 शु^dपवा: सुं ३, ३, ६; कै १, ४;
 मना २, १२, ३; भव ३, ३३.
 शुद्ध-सन्माप्र-संविद्धि- न्ते:
 महा ५, ३.
 शुद्ध-साधिका- ००क अक्ष ५.
 शुद्ध-सिद्धि- द्धि: ह २६.
 शुद्ध-सुवर्ण- ००श्वे त्रिवि ८, २.
 शुद्ध-सुपुत्रा-सरणि- ००शौ सी
 २, ४.
 शुद्ध-स्फटिक-प्रतीति- ति:
 त्रिवि ३, ७.
 शुद्ध-स्फटिक-संकादा- ००सम् हं
 ९१^०; ध्या २२, ३२; १योत ९०;
 २००; २३२; २योत २, २; राट
 २, ५.
 शुद्ध-स्फटिक-संनिभ, भा- ००अ:
 योशि ५, ३४; ००अ २य ३५: १.
 शुद्धा(द-अ)कात्- ००शः ते ६,
 ५७; शौ ते ६, ५८.
 शुद्धा(द-अ)स्मत्- ००स्मा ते ४,
 ३४; ६४; ६, ३९; नाप ५, ३६;
 कालि ४०२: १०^०.
 शुद्धा(द-अ)दधि- ००व्या मं १,

४, २.
 शुद्धा(द-अ)द्वैत-परमानन्द-
 लक्षण-पर-प्रसङ्ग- ००क्षण:
 त्रिवि ८, १.
 शुद्धा(द-अ)द्वैत-प्रसङ्ग- ००क्ष मं
 २, ४, ४.
 शुद्धा(द-अ)द्वैत-सिद्धि- द्धि:
 मं ५, १, ६.
 शुद्धा(द-अ)द्वैता(त-अ)जाड्य-
 सद्ब्रजामनस्कयोगनिद्रा(दा-अ)-
 स्वपडानन्दपदा(द-अ)नुवृत्ति-
 ००श्या मं २, ५, २.
 शुद्धा(द-अ)नन्द-विमान-
 ००नम् त्रिवि ६, २०.
 शुद्धा(द-अ)नन्द-विशेष-सम-
 प्ति-मण्डल-विशेष- ००पम्
 त्रिवि ६, २३^०.
 शुद्धानन्दविशेषसमप्टिम-
 षडलविशेषा(प-अ)नन्त-प्रासा-
 दौ(द-उ)स्रतो(त-उ)ज्ज्वल-
 ००रुम् सि ५, १३.
 शुद्धा(द-अ)न्तःकरण- ००श्याम्
 गोच ६७: ९.
 शुद्धा(द-अ)ज- ००घन भव ४,
 १०.
 शुद्धा(द-अ)भोजन- ००नात् भव
 ४, १८.
 शुद्धा(द-अ)शुद्ध- ००श्री मि १०^b
 शुद्धि- ००द्धि: गोच ६८: २०; १शौल
 शा: भव ३, २०; ४, ४; ००श्विम्
 योच २४; १आ ७; शा २६;
 शि ६, २२१; ००द्धे: भव ३, २१;
 ००श्री त्रिज्ञा २, ८९; ००द्ध्या जाद
 ५, १.
 शुद्धि-त्त(न>)मा- ००मया मैत्रि
 ६, २५.
 शुद्धि-स्नान्य- ००स्ने योस् ३, ५६.

शोधन- ००नम् ध्या ९२; त्रिन्ना २^०
 ९४; योच ६५.
 शोधयित्वा अक्ष ४.
 शोधित- ००तयो: ध्या ४३.
 शोधित-पर-तर- ००श्वः आबो
 १०.
 शुभक^१-
 शौभक(पहुप शु^०)- ००कः सुं १,
 १, ३; छां १, १, ३; ४, ३, ५;
 न १; पत्र ३; ००कः-कः शौ
 ५४: २; ००कम् छां ४, ३, ५;
 ००का: छाप २३: ९; २४:
 १२.
 शौभकी^१- ००की शु ३.
 शौभका(क-आ)दि- ००द्वयः नाप
 २; ६१.
 शौभकादि-महादि- ००श्वयः
 नाप १.
 शौभकीय^१- ००शे सी ६.
 √शुभ>, शोभि, शोभते १संन्या २,
 ३९-४१; सार २४४: १७; पित्त
 ३, ३^०; शोभन्ते सार २५८: २३;
 २६६: ५.
 शोभयन्त सार २२८: २२;
 शोभयेत् शि ६, ११५.
 शुभ, भा- ००अ: श्वे २, १३; मैत्रे ३, ३;
 अक्ष १, ५४; सु २, २, ३; ३१;
 ००भम् सुजा ३, २; ते ४, १४; ५,
 २३^०; ५७; ७८; त्रिवि २७; ४५^०;
 ५०; रुज २, १५; सु २, २, ७;
 कृपु २१; शि ६, २४; ००मया श्वे ३,
 ४५^०; ४, १; १२५^०; मना २, १२,
 ३५^०; सु ५६५^०, ००मस्य शि ९, १२;
 ००भा ध्या १०१; त्रिन्ना २, ७३;
 योच २११; छां १, ४; महा ४,
 ७; ९०; ५, ९०; यो १, ८२; ००भा:
 रुजा १, ११; शि ४, ४०; ४२;

a) गण. (पृ १४४) सस्य. 'आनन्दरूप(प>)पा-> पा' इत्यत्र यनि. शोधः कर्तव्यः। b) कष.। c) वस.। d) तैत्र्या १०, १०, ३। e) ०शः इति अश्या. १ यनि. शोधः र. (तु. निशा. ध्यान.)। f) मलम् इति तान्नि.। g) ००न्दसम् इति निशा.। h) ००द्वैत इति अश्या.। i) व्युः इति अश्वि विशेष-। j) पा २, ४, ६४। k) ००श्या पर्वणशाखा विशेष-।

-भान् गी १८, ७१; -भाम् सु २, २, ९; -नायाम् सु २, २, ९;
 -भे तुल ७१:६; व ४३५:१५;
 -भे वृजा ३, १; त्रिवा २, ९०; सु २, २, ६; भव १, ४७; -भेषु सु २, २, ६; -भै: रार २, ४५; शि ६, १५०.

शुभ-कर- -र: रार १, ७.
 शुभ-कर्म-द्वर्ग-फल- -लम् मं २, ४, २१.
 शुभ-तर-

शुभतर-भाव- -व: आबो ७.
 शुभ-द- -दम् योशि १, ९७; यो १, ३८.

शुभ-प्र(द)दा- -दा: महा ५, २२.

शुभ-प्राप्ति- -सौ अन्न ५, ५९.

शुभा(भ-आ)कवर- -र्य: गी च ६८:९.

शुभा(भ-अ)क्ष-

शुभाक्ष-क- -का: रुजा १, ८.

शुभा(भ-अ)ह-

शुभाहिन- -हिनै रापृ ७, १४.

शुभा(भ-अ)शुभ- -भम्^७ मै ४, ४; मैत्रि ६, १६; २०; ३४; मैत्रे १, ४, ६; गर्भे ३; ४^३; ५; प्र १; ते ६, ३७; नाप ४, ९; योव ११०; महा ४, ३२; नि १, २२; शि ७, ११३; १२६; गी २, ५७; -भयो: पदं ४; तुभ १८; -भस्य हे ८; -भा अ १; -भाम्याम् सु २, २, ५; भव १, ४७; -भै १ आ १५; -भै: प्र १; लु २०.

शुभाशुभ-कर्मन्- -सांनि प्रिवि ५, १०.

शुभाशुभकर्म-निर्मूलन- पर- -र: नाप ३, ८६; पप ४१९.

१५; या २, १०.
 शुभाशुभ-परित्यागिन्- -गो गी १२, १७.

शुभाशुभ-फल- -लम् भव ५, १; -लै: गी ९, २८.

शुभाशुभ-विवर्जित- -त: ते ४, ४९.

शुभे(भ-इ)च्छा^{१०}- -च्छा महा ५, २७; वरा ४, १^३; ३.

शुभेच्छा(च्छा-आख्य)-
 ख्या- -ख्या महा ५, २४.

शुभेच्छा(च्छा-आ)दि-त्रय-
 -यम् वरा ४, ११.

शुभ्र- -भ्र: सुं २, १, २; ३, १, ५; ससा २; -भ्रम् प्र ४, १०; सुं २, २, ९; ३, १; प्र १; २; नाप ४, ३८^१; हे १.

शुभ्र-वख-ध(र)भा- -राम् रा ४२४:१९.

शुभ्र-धेत-कर्तुरि(त)ता-
 -ता: सार २, ७६:३.

शुभ्रा(प्र-अ)भ-

शुभ्राभ्रा(प्र-आ)भे(भ-इ)-
 भ-शुभ-द्वयकर-घृत-कुम्भा-
 (म्-अ)प- -म्भाहि: सौ १, २.

शोभन- -०न अल ५^३; -न: वृपु २, ११^६; १५; -नम् महा ३, ३९; या २, ५; इ १८: ४; शि ६, ९; ४४; १०४; २७८; ७, ८४; -ना: शि ४, २२; -नाति शि ६, २६२; २६६.

शोभमान- -न: वृपु २, ११^६; १५; -ना: मार २, ७४: २३; २८७: १५; -ने पिम ३, ३.

शो(भ)भा- -भया सार २४५: १२; शि ६, १७४; -भा सार

२४५: ३; -भाम् सार २२८: १७; २४४: २१; २४५: ७; ८; शि ७, ७५; -भायै अल ६^३-८^३.
 शोभा(भा-आ)ह्य- -ह्यम् सार २८१: २३; -ह्या: सार २३९: २; -ह्यानि सार २२१: १८.
 शोभा(भा-आ)दि- -दि त्रिवा २, ८७^१; जाद ४, ३३.
 शोभा-भेद- -दै: सार २७१: २.

शोभाय्
 शोभायमान, ना- -न: सार २४५: १२; -नम् सार २४५: ७; १६; २६४: १३; २६५: १९; -ना सार २७१: १४; -ना: सार २३७: ५; २५९: २; २६४: १; १४; १६; २६५: १; १५; २६६: १०; २७६: १; २८१: १९; २८४: ५; -नाति सार २४६: १; २५८: १९; २६३: १५; २०; २६४: ५; १७; २०; २७६: १९; -नाम् सार २६९: १६; -नौ सार २६५: १४.

शोभायमान-लवङ्ग-
 लता-परिशीलित- -शा: सार २२८: १४.

शोभित- -तम् सार २६२: २.

शुम्भ^{११}
 शुम्भ-धंसि(न्)नी^{१२}- -०नि य ४६६: २.

शुल्य^{१३}-
 शौल्यायन^{१४}- -न: वृ ४, १, ३^१.

शुशुकस्- / शुक् (°वधा). ६.

शुशुवस्-, शुशुपण-, शुशुपा-,
 शुशुपित-, शुशुपु- / शुद.

/ शुष्, > शोषि, शुष्पते २ आ ३;
 शुष्पति छां ६, ११, २^१; वृ १, ३, १९; ५, १२, १; १ आ १; शुष्पते

a) भैरव्यायर्गम् इति निभा. । b) समाहारे द्वय. । c) अशुभक इति अष्ट्या. । d) = भूमिवावितोप- ।
 e) = शुद्ध- वा ३-वेत- वा । f) पाप २, २, १० । g) 'शुम्भूः' इति तैसा ३, १०, १, २ । h) तैसा ३, १०, १, २ ।
 i) अष्ट्या. १^१ दे: इति गोष: ३. (शु. निभा.) । j) शु. १^१ = राक्षसवितोप- । k) शु. १^१ = गोपप्रवर्तक-शुष्पिवितोप- ।

महा ३, ५; शुष्यन्ति महा ३, ५०.
शोषयति यो १, १००; सार २२९: १;
७; भव २, ३९; गो २, २३;
शोषय मुं २, २, ३७; शोषय-
शोषय त्रिता ३, ३२; लां २१४:
१८; व ४३०: १२; ४४२: ९;
४५६: १२; शोषयेत् भ १, ३.

शुष्क-भ्रम् वृजा ३, ३०; ३४;
शिशि ३८०: ११; -काय छां ५,
२, ३; -के वृ ६, ३, ७-१२; यो १,
६३; -के: शि ४, ४९.

शुष्क-गोमय- -यम् वृजा ३,
३४.

शुष्क-भृङ्गार- -र: को २, ६०.

शुष्क-वादिन्- -दिनाम् सार
२५०: ५.

शुष्क-वृक्ष-
शुष्कवृक्ष-वत् ते १, २८; मं
३, १, ४.

शुष्क-खिरबा(रभ-अ)ज-
भोजन- -ना: शि ७, १२२.

शोष- -यम् मु २, २, ३८.

शोषण- -णम् मै १, ७; मैत्रि १, ४;
मैत्रे १, २; ध्या ९२; योक् ६५;
वरा २, ३९.

शोषयित्वा वरा ५, ३७.

शोष्य- -ष्यम् ते ४, २७.

शुष्प-
शुष्मिन्- -मिणः प्रा १, ४९५.

शूक- -कम् वा ७.

शूद्र, द्रा^१- -०० द्र छां ४, २, ३, ५; -द्र:
वृ १, ४, १५; वृजा ७, ४; सुवा
१९०; वस् १०; अव्यय: राजा १,
१०; य २, सार २५६: १८; शि ५,
२१; व ३३, ४८; भव २, ३४; ६३;

-द्रम् राज ५, १५; अव्यय: -द्रस्य
शि ५, ४; गो १८, ४४; द्रा: मैत्रि
७, ८; राजा १, ८; ९; शिशि ३८१:
८; भव २, ६५; गो ९, १२;
-द्राणाम् वृजा ५, ५; गो ११, ४१;
-द्रायाम् इ १२: १९; -द्रैण वृ
१, ४, १५; -द्रै: स २९४: १५.

शूद्री- -द्रायाम् इ १२: २१;
१७: १९.

शूद्र- -द्रम् वृ १, ४, १३.

शूद्र-ज- -ज: इ १७: ११.

शूद्रयोनिस्त्रिंशत् इ १२: २०.

शूद्र-सिष्य- -ष्या: मैत्रि ७, ८.

शूद्र-सो-पतितो(त-उ)दक्या-
संभाषण- -णम् नाप ५, १;
१ संन्या २, ५९.

शूद्रा(द्र-अ)ज- -जम् इ १४: ४.

शून्य, न्या^१- -न्य: मै २, ४; मैत्रि २, ४;
६, २८; ३१; ७, ४; योशि ४, १६;
-न्यम् अना १२; वृ ४, ३४;
ते १, ११; ६, १५; निवां २९७:
१३; शां १, ७, ४१; महा २, ६६;
५, ५२; १८४: ६, ५८; ६१; अज
३, १९; दे १; सौ ३, १; काम ३;
वपू ३, १; सांम् १, ४३; ४४; ५,
७९; न्या इ १९: ७; न्यानाम्
दे १७; न्ये नाप ४, २०; महा
६, २२; अज ४, ४९; सौ २, ६;
योरा १४; न्येन महा ५, ५३;
-न्येषु नाप ६, २.

शून्य-कुम्भ- -म्भ: मैत्रे २, २७;
वरा ४, १८.

शून्य-गृह- -हे भि ९; तारा ८४:
१३.

शून्य-तर- -रम् महा ४, ५८.

शून्य-ता- -ता ते १, ४१; ४२; ६;
२८; -ताम् नाद २८.

शून्य-भव- -व: १ संन्या २, १५.

शून्य-भाव- -वम् ते १, १०; -वे
अना १२.

शून्य-भूत- -त: मैत्रि ६, २३.

शून्य-मण्डल- -ले राधा १, ६.

शून्य-वादिन्- -दिनाम् अव ३, १९.

शून्य-वृत्ति- -त्त्या ते १, ४२-३.

शून्य-साक्षि(न्>)शी- -शी दे १७.

शून्या(न्य-आ)कृति- -ति: १ संन्या
२, १५.

शून्या(न्य-अ)भार- -रे मैत्रि ६, १०.

शून्यागार-देवगृह-वृणकूट-
वल्मीक-वृक्षमूल-कुलालशाला-
(ला-अ)सिंहोत्रगृह-नदी-पुलिन-
गिरि-कुहर-कन्दर-कोटर-निर्झर-
स्थण्डिल- -लेषु जा ६.

शून्यागार-देवगृह-वृणकूट-
वल्मीक-वृक्षमूल-कुलालशाला-
(ला-अ)सिंहोत्रशाला-नदी-
पुलिन-गिरि-कन्दर-कुहर-
कोटर-निर्झर-स्थण्डिल- -ले
भि १३.

शून्यागार-देवगृह-वृणकूट-
वल्मीक-वृक्षमूल-कुलालशाला-
(ला-अ)सिंहोत्रशाला-नदी-
पुलिन-गिरि-कन्दर-कुहर-
कोटर-निर्झर-स्थण्डिल- -ले
भि १३.

शून्यागार-देवगृह-वृणकूट-
वल्मीक-वृक्षमूल-कुलालशाला-
(ला-अ)सिंहोत्रशाला-नदी-
पुलिन-गिरि-कन्दर-कुहर-
कोटर-निर्झर-स्थण्डिल- -ले
भि १३.

शून्यागार-देवगृह-वृणकूट-
वल्मीक-वृक्षमूल-कुलालशाला-
(ला-अ)सिंहोत्रशाला-नदी-
पुलिन-गिरि-कन्दर-कुहर-
कोटर-निर्झर-स्थण्डिल- -ले
भि १३.

शून्यागार-देवगृह-वृणकूट-
वल्मीक-वृक्षमूल-कुलालशाला-
(ला-अ)सिंहोत्रशाला-नदी-
पुलिन-गिरि-कन्दर-कुहर-
कोटर-निर्झर-स्थण्डिल- -ले
भि १३.

शून्यागार-देवगृह-वृणकूट-
वल्मीक-वृक्षमूल-कुलालशाला-
(ला-अ)सिंहोत्रशाला-नदी-
पुलिन-गिरि-कन्दर-कुहर-
कोटर-निर्झर-स्थण्डिल- -ले
भि १३.

शून्यागार-देवगृह-वृणकूट-
वल्मीक-वृक्षमूल-कुलालशाला-
(ला-अ)सिंहोत्रशाला-नदी-
पुलिन-गिरि-कन्दर-कुहर-
कोटर-निर्झर-स्थण्डिल- -ले
भि १३.

शून्यागार-देवगृह-वृणकूट-
वल्मीक-वृक्षमूल-कुलालशाला-
(ला-अ)सिंहोत्रशाला-नदी-
पुलिन-गिरि-कन्दर-कुहर-
कोटर-निर्झर-स्थण्डिल- -ले
भि १३.

शून्यागार-देवगृह-वृणकूट-
वल्मीक-वृक्षमूल-कुलालशाला-
(ला-अ)सिंहोत्रशाला-नदी-
पुलिन-गिरि-कन्दर-कुहर-
कोटर-निर्झर-स्थण्डिल- -ले
भि १३.

शून्यागार-देवगृह-वृणकूट-
वल्मीक-वृक्षमूल-कुलालशाला-
(ला-अ)सिंहोत्रशाला-नदी-
पुलिन-गिरि-कन्दर-कुहर-
कोटर-निर्झर-स्थण्डिल- -ले
भि १३.

शून्यागार-देवगृह-वृणकूट-
वल्मीक-वृक्षमूल-कुलालशाला-
(ला-अ)सिंहोत्रशाला-नदी-
पुलिन-गिरि-कन्दर-कुहर-
कोटर-निर्झर-स्थण्डिल- -ले
भि १३.

a) स्थित्ये इति अच्चा, शित्ये इति अच्चा. संटि. । b) रम् इति अच्चा. । c) = १ वल- । वैप १ यद. ।
d) मा ११, ८३ । e) व्यु: = राडा- (तु. वाटी, बे) । f) वैप १ यद. । g) छ १०, ९०, १२ । h) वा. १ निंसंनिखरे
इत्येवं शोषः द. । एतदनु गप्. (पृ १७) सस्य. 'विस्य-> -वसा' इत्यनाडिपि शोषः कर्तव्यः । i) व्यु: । j) ० वेन
इति आन. । k) ० प्रशाल(नदी... निजंनस्थ) इति अच्चा. । l) समाहारे दस. । m) ० लेषु इति अच्चा. । n) ० निजंनस्थ
इति अच्चा. । o) उ. गप्. पृ ५३२, ६ ।

मिहोत्रमाला(ला-अ)मिदि-
 गन्तर-नदीतट-पुलिन-भूगृह-
 कन्दर-निर्द्वार-स्थण्डिल- -लेपु
 नाप ३,८६.
 शून्या(न्य-अ)तीत- -तम्ते १,१०.
 शून्या(न्य-अ)रमन्- -रमा ते ४,४३
 शून्या(न्य-अ)शून्य-प्रभाव- -वः
 मैत्रे ३,५.
 शून्या(न्य-अ)शून्य-विवाजित-
 -तम् शां १,७,१५.
 शूर- --र मना १,११४^४; अशि ४,
 २४^४; वड ३१६ = १३४^४; -रः
 आह ५; -राः महा ३,५४; गी १,
 ४; ९.
 शौर्य- -धम् गी १८,४३.
 शूर(र>)रा^{१०}- -रा योशि ५,२२.
 शूर^{१०}-
 शूर-सुकर्ण- -धम् ग १२.
 शूल^{१०}- -लान् १ ३३ = ४; -लेन छां
 ७,१५,३.
 शूल-पाणि^{१०}- -गिः महा १,१.
 शूल-मूल- -ले त्रिता ३,३१.
 शूल-वेष्टित- -तम् गोपू १८^१.
 शूला(ल-अ)प्र- -प्रेपु त्रिवि ७,४७.
 शूलिन्^{१०}- -लिनम् रार २,३२; -लिन
 स २३.
 शूलिनी^{१०}- -नि व ४३०:११;
 ४३१ = १८.
 शूलफ^{१०}- -०क अक्ष ५^४.
 शूला(ल>)शूला^{१०}- -लया महा ५,
 ८७; -ला महा^{१०}, ९८; मु२, २, ३९
 शूला-बद्ध-सिंह-
 शूला-बद्धसिंह-वत् महा^{१०},
 १२९.
 शूला-बन्ध- -धम् लां २१५:१४

शूली/क
 शूली-कृत- -तः शि ७, १०४.
 शूली- -कम् वृ ६, ५; ७, १५^४; क८;
 १शूली- -कम् वृ ६, ५; ७, १५^४; क८;
 -कयोः वृ ३, १, १; -^४कामान्, १२, २; शी ५३: १४; -कानि सार
 २६४: ५; -काम्याम् वृ ६, ५;
 -क्रे वृ ७, १५; गो १९; शी
 ५२: २०; -क्रेण वृ ७, १५;
 -क्रेपु वृ ६, ५^३; -क्रेः वृ ४, ५.
 शूली^{१०}- -कम् रार ३, १; क२३;
 गो ५६; -कान्य त्रिवि ७, ४२.
 शूला-वन्त-शालाका- -क्या शि ७,
 ५६.
 शूला-प्रोत- -तान् वृ ४, ६.
 शूला(क-अ)र-कला^{१०}- -ला व २.
 शूला(क-अ)धै- -धम् वृ ७, १५.
 शूली^{१०}-
 शूली^{१०}- -क्री म ४९: ३.
 शूला^{१०}- -रम् सार २३४: १२; २४३:
 १; २६४: १८; २६५: १७; २७०:
 ८; २८६: १९; -राः सार २३७:
 १९; -रे सार. २८७: १.
 शूला-गृह- -हम् सार २६४: १६.
 शूला-भोग- -गौ वि १४.
 शूला-यथायोग्य-काला(ल-अ)-
 नि(ल>)शूला^{१०}- -शा सार
 २६३: ८
 शूला-रस^{१०}- -सम् सार २३४:
 १३; २३७: ९; २३९: ८; -सात्
 सार २८७: ६; -सेन सार २३३:
 ११.
 शूला-रस-विनोदिन्- -दिने
 सार २५१: १२.
 शूला-र(स>)शूला^{१०}- -सा सार
 २८२: ११.

शूला-रूप- -पाय सार २४७: ५.
 शूला-लीला- -लायाम् सार २८६:
 १९.
 शूला-व(त>)शी^{१०}- -ती सार
 २३४: ६; २६३: १; २६८: ६;
 २६९: ११; -त्या सार २२५:
 ४; २३७: १८; -न्याम् सार
 २५२: ३.
 शूला-घरया(ती-अ)दि- -दयः
 सार २२२: २३; २३७: ७;
 २७०: ७; २८४: ७; -दीनाम्
 सार २६१: ११.
 शूला-सुख- -खम् सार २७६: ५.
 शूला-स्थल- -लम् सार २२८: ६.
 शूला-स्थान- -नम् सार २२५: ४;
 २६९: ११.
 शूला-रा(र-अ)दि- -दयः मा ९.
 शूला-रादि-भोग- -गाः सार
 २२३: १४.
 शूला-रा(र-अ)सुभव- -वैः सार
 २६९: २०.
 शूली^{१०}-
 शूली-मठ^{१०}- -ठः म ४९: १.
 शूला-वत्- √धु ४.
 शूला- √धा ४.
 √शू(बधा.), > शिर, शीर्यन्ते वृ ३, ९,
 २६; ४, २, ४; ४, २२; ५, १५;
 शीर्यन्ते महा ३, ४९.
 शूला^{१०}- -रः सुं २, २, ४; मैत्रि ६,
 २४; ध्या १४; कृ ३८: ३९;
 -रम् सुं २, ३; रार २, ७२; ३, १-
 नार-चाप- -पी व ४२७: १६-
 नार-घत् सुं २, २, ४; ध्या १५;
 कृ ३८.
 शूला^{१०}- -रः मा २१. ।

a) वैपरी यद. b) शू ३, ४७, २ । c) शू ७, ३२, २२ । d) व्युः ? = शून्यस्थ-नाडीविशेष- ।
 e) ०पकर्म इति निता. । f) मूलं इति आन. । g) व्युः ? = छादक- । h) वैतु. मोहं इति निता., निता. संटि.
 गृहं इति शब्दा. संटि. । i) व्युः ? । j) वैपरी यद. । इह = विपाण, शिखर-, प्रणवमात्रविशेष- । k) शू ४,
 ५८, ३ । l) = विष्णुधनुर्- । m) = प्रणवार्धमात्रा- (त. उत्र.) । n) व्यु. अर्धश्च ? । o) व्युः ? = शूविशेष- ।
 p) व्युः ? = मादिरियकरविशेष-, वेपभूयाविशेष- । q) सप्त. । r) सप्त. ।

शरू-
 शर(व्य>)श्या- श्या नी १,
 ७५^b.
 शरू-शर- -मात् मना १, ९५^c.
 शीर्ग-
 शीर्ग-पर्ण-फल-भोजिन्-
 -जिनः आश्र ३.
 शेमुषी^d- -पी द १९.
 शैव-
 शैव-धि^e- -धिः क १, २, १०; शा
 ३३५^f; सु १, १, ५१५^g; -धिः
 मैत्रि ६, ३०.
 श-शेष- √शिप् द.
 शेष^h- -धः सं १; -वाष् सं ५.
 शेष-देव- -वः राधा १, ७.
 शेष-नाय- -नः कृ १२.
 शेष-फणा(ण-श्च)च्छादित-
 मौलि- -लिम् अव्य २.
 शेषा(व-ञ्च)युत-फ(ण>)णा-
 शेषायुतफणा-जाल-विपुल-
 च्छत्र-शोभित- -तम् शिबि
 ७, ५०.
 शैल- √शिप् द.
 शैत्य- √रयै द.
 शैथिल्य- शिथिल- द.
 शैव्य- शिथि- द.
 शैल- शिला- द.
 शैलिनि- शिलिन- द.
 शैल्य- शिल्य- द.
 शैव- शिव- द.
 शैवालⁱ- -लम् शप् १५.
 शैशव- शिशु- द.
 शोक- √शुक्(शोके)द.
 शोचित- √शुक्(पथा.)द.

शोचिन्तुम्, शोच्य- √शुक्(शोके)द.
 शोशित^l- -तम् गर्भ २; निरु १, ४;
 व ४५८: २०; -तात् गर्भ २;
 निरु १, ४.
 शोशिता(त-ञ्च)तिरेक- -के निरु १, ६.
 शोधन- शोधयिस्वा, शोधित-
 √शुप् द.
 शोभन- शोभमान-, शोभा-, शो-
 भायमान-, शोभित- √शुभ् द.
 शोम्^m तै १, ८, १.
 शोप-, शोपण-, शोपयिस्वा, शोप्य-
 √शुप् द.
 शौकी- शशु- द.
 शौच- √शुक्(पथा.)द.
 शौद्र- शद्र- द.
 शौनक- शुक- द.
 शौर्य- शर- द.
 शौल्यान- शल्य- द.
 शौव- श्व- द.
 शम्ⁿ यो १.
 शम्(<>श्म^oशान^o- -नम् यो
 १५^p; -ने निर्वा २९८: १२;
 -नेषु महा ३, ४२; वा २, ८.
 श्मशान-वासिन्- -सिनः मि ९;
 -सिने पारा ३; ८.
 श्मशानवासिनी- -न्यै व ४६३:
 १३.
 श्मशान-स्थल- -लम् नाप ७;
 १संवा २, ७९.
 श्मशाना(न-ञ्च)भि-समुद्रव- -यम्
 वृजा ५, ५.
 श्मशु^q- -क्षु शि ७, ५५.
 श्रयाम^r-
 श्रयाम, मा^s- -नः वृ ६, ४, १६; रा ५

४, ७; अव्य ६; -नम् छां ८, १३,
 १; रा २, ४; १४; ४७; ८४; -मा
 सार २६८: ६५^t; -मात् छां ८,
 १३, १; -माम् तुल ७०: ३५^u.
 श्याम-कान्ति- -न्तिम् न ४२७:
 १५.
 श्याम-पीताम्बर- -रः राधा १,
 १६.
 श्याम-वपुस्-ध(र>)रा- -राम्
 तुल ७०: ३.
 श्याम-हिरण्य-परिधि- -यन-
 माला- -लया सार २४५: ११^v.
 श्याम-हिरण्य-परिधि-यन-
 माल्य- -वर्धा(र्ह-ञ्च)प्तोतित-
 मुक्ता(का-ञ्च)वली- -ली सार
 २६५: १७.
 श्याम-स्व-
 श्यामस्व-सत्- -त्क् सं १, ३,
 ८; भता ६.
 श्याम-ल, ला- -लम् रा २, ३७;
 १०२; -ला राधा १, १९५^w; रा
 ४२५: ११५^x; ४२६: २५^y;
 -लाम् रा ४२४: ५५^z; १३५^{aa}.
 श्याम-वर्ण- -णः य ४४३: १०;
 -मै वि ११; १९.
 श्यामाक^{bb}- -कात् छां ३, १४, ३.
 श्यामाक-सङ्कुल- -लात् छां ३,
 १४, ३.
 श्याला^{cc}- -लाः गी १, ३४.
 श्याय^{dd}-
 श्याय-दन्तक- -कः १संन्या २, ३;
 इ १७: ५.
 श्यावा(व-ञ्च)ध- -धः च १२^{ee}.
 श्येत^{ff}- -तम् छां ८, १४, १^{ff}.

१) वैपरी यद. । २) तैसं ४, ५, १, १ । ३) धृ १०, ८९, ५ । ४) श्यु. १ । ५) वाप २, ८ । ६) श्यु. १ = नाग-
 विरोध- । ७) श्यु. १ = जलनीली- । ८) श्यु. १ = धि(र- । ९) शम्- + भोम्- एरिध. शम्- इत्यस्य डेः पररूपं
 द. (वावा ६, १, ९४) । १०) श्मशान- इत्यस्य पूर्वार्धः । ११) द्र. गृ. ६५७०४ । १२) श्यु. १ = वर्षाविरोध- । १३) = वर्ष-
 विरोध-नव- । १४) = गरीविरोध- । १५) = तुलसी- । १६) ०रिमप्यव^o इति वा. १ मनि. शोषः द. । १७) = गोरीविरोध- ।
 १८) = देवीविरोध- । १९) श्यु. १ = भान्यविरोध- । २०) = रयाल- (वैपरी यद.) । २१) = श्रयाम- (वैपरी यद.) । २२) 'समुद्रः'
 इति मन्त्रि १२ । २३) मरुत् श्च इति निता. ।

इयेन- -नः ए ४, ५९^७; वृ ४, ३, १९;
मना २, १२, १९^७; २, ४०^७; कौ
२, ९; अ२^१; योचू २९; सु२९४;
५९^७; ९^७ व ४४२: १९; ४४८: ३;
४५२: १०; -नम् सुवा ९^१;
१५.

इयेन-वत् सांस् ४, ५.

इयेना(न-आ)काश-

इयेनाकाश-वत् व १.

√प्रयै(वधा.)

शीत, वा- -तम् पहं २; ते ४, १८;
नाप ३, ८६; वज २, २१; -ता^७
व ४४३: २०^७.

शैत्य- -त्यम् महा ५, १५०.

शीत-ज्वर^१- -रम् व ४३३: २१.

शीत-मन्द-सुरभि-भाव- -वेन
सार २२८: १.

शीत-रविम- -दिमता योशि १,
९१.

शीत-रुचि- -चौ अन्न ४, ९.

शीत-रु^१- -लः तेद, ८४; वरा
४, २७; -लम् अन्न १, ३५; -लैः
मिशि ३८३: ४.

शीतल-चन्दन- -नेन वज
६, ४३.

शीतल-ज(ल>)ला- -लाः
सार २६६: २०.

शीतला(ल-आ)शय-वर्तिन्-
-र्ति अन्न ४, ५१.

शीतल(ल>)ली^१- -स्त्री यो
१, २१; ३१^१; -स्त्रीम् यो १, ८८.

शीतली-करण- -णम् योशि
१, ९६.

शीत-वातो(त-उ)ष्ण-त्राण-
कर- -रम् नाप ४, ३८.

शीत-स्वभावक- -कम् यो १,
७१.

शीतां(त-अं)शु^१- -शुः महा २,
२७.

शीतांशु-मण्डल- -लम् यो
१, ६९

शीतांशु-संजात- -तम् यो
१, ७०.

शीता(त-अ)मि-जल-वर्जित-
-ते यो १, २२.

शीतो(त-उ)दक-पूर्णा(ण>)र्णा-
-र्णाः सार २२४: २३; २२५: १.

शीतो(त-उ)पघाति(न्>)नी-
-नीम् कुं ९; क६ १; कथु ३, १.

शीतो(त-उ)ष्ण- -ष्णम्^१ नाद
५३; -ष्णाभ्याम् कुं ८; -ष्णे ते
१, १३^१.

शीतोष्ण-रू(प>)वा- -पा
सी १५.

शीतो(त-उ)ष्ण-सुख-दुःख-
-स्वेषु गी ६, ७; १२, १८.

शीतोष्णसुखदुःख-द- -दाः
गी २, १४.

शीतोष्णसुखदुःखा(ल-आ)-
-व- -चैः योशि १, २८.

शीतो(त-उ)ष्ण-सुख-दुःख-
माना(न-अ)वमान^१- -नम् तुअ
११.

शीतोष्णसुखदुःखमानाव-
मान-वर्जित- -तः पप ४२०:
१२.

शीतो(त-उ)ष्ण-सुख-दुःख(ख-उ)-
च्छा-सत्त्व रजस्व-तनो-गुण-
-णाः भा २१^७.

शीतो(त-उ)ष्णा(ष्ण-आ)हार-
शीतोष्णाहार-निद्रा-वि-
जय- -यः मं १, १, ३.

इयैतनौघस- -से कौ १, ५१^७.

श्रं^१ राघू ४, ५०^१.

श्रः^१ लं २१६: ९.

श्रत्कः^१ कृपु १९.

श्रद्धानन्तरम्^१ अर्द्धभा १७.

श्रृष्टः^१

श्र(ध>)द^१धा, अद्भत्ते वृ ३, ९,
२१; अद्भधाति छां ७, १९, १;
२०, १^१; अद्भत्स्व छां ६, १२, २;
वि २७; हे२^१; अद्भध्याम वृ ५,
१४, ४; गा १३^१.

श्रद्-दधत्- -धत् छां ७, १९, १.

श्रद्-दधान- -नाः द१^१; गी १२,
२०; -नाय क१, १, १३; अन्न १, १७

श्रद्-धा- -धया प्र १, २; १०;
५, ३; तै १, ११, ३; छां १, १, १०;
मना २, ७९^७; वृजा ६, १२; वृष्ट
५, १०; शां १, २; वजा ३, १;
जाद २, ७; गी ६, ३७; ७, २१;
२२; ९, २३; १२, २; १७, १; १७;
-धा क १, १, २; भुं २, १, ७; तै
२, ४, १; छां ५, १०, १; ७, १९,
१; वृ१, ५, ३; ३, ९, २१^१; मैत्रि ६,
३०; मना २, ७९^७; ८०^७; वृजा
५, १२; नाप ४, ११; त्रिवि ५, ८;
शां १, २; जाद २, १०; सी १, ३९^१;
सर १, ४९^१; ३, ५९^१; १११: १६;

a) विप. वा नाप. (=पक्षिविशेष-, वायुविशेष-) वा । वैप१ यद. । b) श्र ४, २७, १ । c) श्र ९, ९६, ६ ।

d) ० नम् इति श्रान. । o) श्र ९, ९६, १९ । i) धा. स्पर्शे श्रतिः (पा ६, १, २४) । g) =अमितत्वविशेष- । h) तीष्ठा
४, २३, १ । i) पा ५, २, ९७ । j) वृ. गपृ. पृ६०४; j) । k) ० वृहत् इति तिसा. संति. । l) =चन्द्रमस्- । m) समा-
हारे द्रव. । n) ० ष्णम् इति श्रान. । o) ० खेच्छाः मत्वं रजस्वमः इति तान्त्रि. । p) इये० इति शांथा. (३, ५), स्त्री^०
दनि निता. श्रध्या. च यनि. दोषः द. (वृ. श्रान., वे.) । q) =बीजमन्त्रविशेष- । r) 'शुं' इति श्रान. । s) पा. १. । t) वैप१
यद. । u) ० इत्स्व इति पा. १ यद. दोषः द. । v) ० इत्स्याः इति पा. १ यद. दोषः द. (वृ. नापृ.) । w) तीष्ठा १०,
९३, १ । x) तीष्ठा १०, ९३, १ । y) तीष्ठा १०, ९४, १ । z) =देवीविशेष- ।

म ४२, १९; राधा १, २, ११^{१०}; शि
३, १३; शिशि ३८०: १४; सु ३०;
मव ४, १०; गी १७, २; ३; धाम्
प्र ६, ४; छां ५, ४, २; ७, १९, १;
वृ ३, ९, २, १; ६, २, ९; १५; गी ७,
२१; धायाम् वृ ३, ९, २, १^{११}; मना
२, ६९^{११०}; ७०^{११०}.

श्रद्धा^{११०} - दम् ये ४,
७; इ १०: १०; १२: १९; १३: ६;
१०; ११; १३; १५^१; १६: १७;
१९; १४: १२; १६: १४; १७: १७;
१५; १७^१; १८: १०; १९: ६; तुल
७१: १३; १४; १७; शि ६, १९५:
-द्वानि इ १२: ११^१; १३: १; १६:
२०; -द्वे इ १३: ७^१; १५: १९;
चू २०.

श्रद्ध-कर्तृ- -तां इ
१४: १०; ११.

श्रद्ध-कर्मन्- -मणि
इ १७: ११.

श्रद्धकर्म-यदिप-
कृत- -ता: इ १७: १४.

श्रद्ध-काल- -ले क
१, ३, १७.

श्रद्ध-तर्पण- -णम्
२संन्या १५: ४.

श्रद्ध-मुञ्ज- -मुक् इ
१४: ६.

श्रद्धा^{११०} - दम् इ १४: २२.

श्रद्धा-कलत्र^{११०} - -प्रम् मैत्रे २,
२३.

श्रद्धा-देय^{११०} - -य: छां ४, १, १.

श्रद्धा-दा-या(गु)रु(गु)पा-
-या मा २५.

श्रद्धा-भक्ति-प्यान-योग-
-गात्र के १, २.

श्रद्धा-भक्ति-पुरस्कृत- -ते
१संन्या २, ६४.

श्रद्धा-भक्ति-यदिपकृत-
-तम् १संन्या २, ६४.

श्रद्धा-मय- -य: गी १७, ३.

श्रद्धा-मेधा- -धे मना २,
६३^१; ६४^१.

श्रद्धा-वत्- -यन्त: गी ३,
३१; -यन्तम् नाप २; सु १, २,
६^१; -यान् त्रिवि ८, २३; गी ४,
२९; ६, ४७; १८, ७१.

श्रद्धा-विरहित- -तम् गी
१७, १३.

श्रद्धा-वीर्य-स्मृति-समाधि-
यज्ञा-पूर्वक- -क: योसु १, २०.

√श्रद्धि
श्रद्धयत्- -यन्त: सुं ३,
२, १०.

श्रद्ध-पाल- -लु: नाप ६, १७.

√श्रम्, > श्राप्, श्रागति वृ १, ५,
२१^१; अश्राग्यस गोच ६२: १०;
अश्राग्यत् वृ १, २, ३; ६.

श्रम- -म: वृ १, ५, २१; योशि १,
३२; ९, ७; यो १, ३५.

श्रम-जात- -तेन प्या ७१; शां
१, ७, ४.

श्रम-त्याजिन्^{११०} - -जी सो २, २.

श्रम-दाह- -हो शां १, ७, ४५.

श्रमदाह-विनिर्मुक्त- -क:
जाद ६, २५.

श्रम-निर्हरणा(य)-आर्थ- -धम्
प्या ९३, १२^{१०}.

श्रम-संजाव-पारि- -रिणा योचु
४१.

श्रमा(म-अ)पनुद- -याप पा
२, ४.

श्रमा(म-अ)पनोदा(द-अ)र्थ-
-धम् सार २६८: १८.

श्रान्ते, न्ता- -न्त: वृ ४, ३, १९; ये २,
३८; महा ५, ५९; -न्तस्य^१
वृ १, २, २; ६; -न्ता सार ६६३:
३१^{१०}; -न्ता: सार २२८: ३; -न्तो
जाद २, ७.

श्रमण^{११०} - -य: वृ ४, ३, २२; न २.

श्रयत्- √श्रि ६.

श्रयण^{११०} -
श्रवण^{११०} -
श्रावण^{११०} - -यो रा ४२३: २०;
वृ ६, ४२.

श्र-श्रवण- √श्रु ६.

श्रवण^{११०} इ १९: १७.

श्रवस्- √श्रु ६.

श्रविष्ठ^{११०} > श्रा^{११०} - -छाये व ४३८: ८.

श्रविष्ठा(श्रा-श्रा)र्थ- -धम् मैत्रि ६, १४

श्रविष्ठा(श्रा-श्रा)न्त- -न्तस्य
मैत्रि ६, १४.

√श्रा > श्र, श्रि
श्रत्- -तास: सु २९, ३: १८^१; अठ
३०^१.

श्रपयित्वा नाप ४, ३८; या २, १^१.

श्रां^{११०} तां २१५: १६.

श्राचित- √श्रु ६.

√श्रि, श्रयति अचि ११; श्रयन्ते^{११०} यर्म्
५; अश्रयत् छां ३, १, ४; २-५, ३.
शिश्राय सार २६१: २०.
शिश्रायण- -णम् वा ९१^१.

a) = गोवीर्यशेष- । b) तैश्चा १०, ६९^{१०} । c) तैश्चा १०, ३६, १^१ । d) पावा ५, १, ११० । e) च्छु^{१०}
इति वा. इ यनि. शोष: द. । f) °दम् इति वा इ यनि. शोष: द. । g) विप. (पा ५, २, १०१) । h) वस. । i) यम.
(प्र. सं. प्रश्न; वैतु. MIV. = देव- इति) । j) तैश्चा १०, ६३ । k) तैश्चा १०, ६४ । l) °न्तः इति निष्ठा. ।
m) उम. उप. कुत्वाऽभावः उरसं. (या ७, ३, ५२) । n) °निर्मं इति निष्ठा. । o) = मलीशेष- । p) श्रु. १ ।
q) श्रु. १ = नचत्रिशेष- । r) वा. कुटितः । s) श्रु ९, ८३, १ । t) तैश्चा १, २७, ४ । u) विपयि^{११०} इति अण्वा. ।
v) = बीजमन्त्रशेष- । w) श्रि^{११०} इति वा. इ यनि. शोष: द. । x) श्रु १, ३२, २ ।

श्रित-तः मै५,२; मैत्रि ६,२; मना
२,१२,२५^०; -तम् छां ३, १५,
१; कौ २, ८; -ताः क २, २, ८;
३, १; १४; तै २, २, १; वृ ४, ४,
७; शा २५^०; २२ ३७:३; नी१,
१५^०; गी ९, १२; -तासाः शा ११.

श्रित्वा त्रिता २, २९; ३१.

श्री^०- श्रियः रार २, ८८; सौ १, २; ऊ
६४: १; अद्भिभा १५; श्रियम्
तै १, ४, २; छां ३, १२, ९; मै १,
५; मैत्रि १, ४; मना १, १०५^०;
२, ३५५^०; ६३५^०; वृ ३, २-४;
४, १२; राप् ४, १५; त्रिवि ७,
४०; रार २, ८१; ९४; महा १,
१; त्रिता ३, २४; वरा ५, ३४;
३९; सौ १, १; २^३; २शिसं ३ ६५^०;
काम १; व ४६२: १३५^०; ४६६:
१२; १४५^०; १५५^०; वपू २, २^३;
श्रिया तै १, ११, ३; वृ ५, १४,
३; ६, ४, २८; मना १, ५५^०; वृ
१, १^३; ४, ८^३; अन्व २^३; गोउ ३८;
सूता ३, ३^३; का १०; गा ९; वपू
१, ४; ५; श्रियाम् निर्वा २९७:
८^३; श्रिये व ४२६: ११; ४६६:
१४^०; श्रियै मना २, ६३५^०; सौ
१, १; २; श्रीः प्र २, १३; छां ३,
१३, २; वृ २, ३, ६; ६, ४, ६; मना
१, १०५^०; २, ६४५^०; कौ १, ५^३;
२, ६१^०; वृजा ३, ८; ४, २३; वृ
४, १५, ७; सी १६; महा ३,
८; अल ४, २१; सी १, १^३; २;
का १०^३; ५^३; नाप् २, ४; सार
२२४: २; व ४६२: १४५^०;
भव ४, १०; गी १०, ३४; १८,
५८.

श्री-मनन्त-घोर-प्रलय-ज्वाला-
मि-रौद्र- -द्रस्य लां २१३:१.
श्री-कण्ठ-रूप- -पः गुपो ४२१:१.
श्री-कर- -०र त्रिवि ७, ३१; -रम्
ऊ ६४: १; व ४५८: १४.
श्री-कला- -लाम् पो ८; १०.
श्रीकला-पुटि(त>)ता- -ताम्
पो. ८; १०.
श्री-काम- -मः सूता १, २१; व
४६२: ११.
श्री-काम-राज-
श्रीकामराजी(य>)था- -याम्
त्रिता ५, २१.
श्री-काला(ल-श्र)मि-रुद्र^१- -द्रः
काला १.
श्रीकालामिरुद्र-श्रीत्य(ति-श्र)-
र्य- -र्ये काला २.
श्री-कीर्ति-वर्धन^०- -नम् शि ५, १.
श्री-कृष्ण^१- -०ष्ण गोपू ४४; -ष्णम्
गोपू ४६; -ष्णाय त्रिवि ७, ४१;
गोपू ४०; ४२; गोउ ६४^०; सार
२६०: २१.
श्रीकृष्ण-भगवत्- -वान् कृपु
२^५.
श्रीकृष्णा(ष्ण-श्र)क्य-पर-
-रम् गोच ६९: २०^१.
श्री-कृष्ण-राधा- -रूप-
श्रीकृष्णराधारूपिन्- -पिणे सार
२७७: १४.
श्री-कृष्ण-वामना(न-श्र)प्टा-
(ष्ट-श्र)क्षर-मन्त्र- -न्त्रौ त्रिवि
७, ३८.
श्री-कृष्ण-वामना(न-श्र)ष्टादना-
(श-श्र)क्षर-मन्त्र- -न्त्रौ त्रिवि
७, ३७.

श्री-कृष्ण-सुदशन-पोडशा-
(श-श्र)क्षर-मन्त्र- -न्त्रौ त्रिवि
७, ३६.
श्री-कैतोर-कृष्ण- -ष्णः राधा ३, ९.
श्री-खेचरी-सिद्धि- -द्धिः यो २,
२३.
श्री-गणपति- -तेः वउ ५, २.
श्री-गुरु- -रवे मष्ट ८: ६; -रुः भा २.
श्री-गुरु-चैतन्य- -न्यम् म ४८: ४.
श्री-गोपाल- -लाय गोउ ६४^०.
श्री-गोवर्धन- -नम् सार २८६: ५.
श्री-गोतम-विवाह-काल- -ले
वृजा ६, ५.
श्री-चक्र^१- -क्रम त्रिता २, ३७; ६७;
भा ३; -के चक्र १.
श्रीचक्र-न्यास- -सम् चक्र ६.
श्रीचक्र-पूजन- -नम् भा ९.
श्री-चन्दन^१- -नेन रा ४२५: १५.
श्रीचन्दन-विलिप्त-भाषा-
जगन्मोहन-चक्र^१- -क्रम रा
४२५: १२.
श्रीचन्दन-विलिप्ता(स-श्र)त्त>-
ज्ञौ- -ज्ञीम् रा ४२४: १९.
श्री-चूर्ण- -र्णम् ऊ ६४: १; का
१०.
श्री-तुलसी^१- -सीम् तुल ७१: १३;
-स्यै तुल ७०: १०; ११.
श्रीतुलसी-वैकुण्ठ-पुर^१- -रम्
त्रिवि ६, २२.
श्री-देवी- -वी सी १६.
श्री-धर^१- -०र नापू ३, १६; -नाय
त्रिवि ७, ४१.
श्री-नन्द^१- -न्दस्य सार २६३: १७.
श्री-नारायण- -णस्य व ४५७: १०.
श्री-पति- -तिः शि ६, ४.

a) श्र २, ३, १२ । b) स्थि^० इति अस्या. संटि. । c) मा १६, ६ । d) वप्रा. वैप१ यद. । इह = ऐर्ध्व-
लक्ष्मी-, वीजाक्षरविशेष-, हरिश्वा- प्रथ. । e) सि ५, ८७, ९ । f) तैश्वाशा १०, ३५ । g) तैश्वाशा १०, ६३ । h) सि
५, ८५, ९ । i) श्र ९, ९४, ४ । j) तैश्वा १०, १, ५ । k) प्या इति अस्या. । l) श्र ९, ९४, ४ । m) तैश्वा १०, १, १० ।
n) तैश्वासा १०, ९४ । o) 'श्री' इति निशा., अस्या., 'दी' इति अस्या. संटि. च यनि. शोधः द. (तु. शांशा ४, ६) ।
p) उव. उव. क्तीरि क्त्वर. q) दां कृ^० इति आन. । r) गा. १^० श्यं प^० इति द्विपदः शोधः द. (तु. ज. C) । s) दां गो^० इति आन. ।

श्री-परम-धामन्- -ने स्फ १३.
 श्री-परमात्मन्- -स्मा ता ३, १; २;
 ४; ५-८.
 श्री-पर्वत- -तम् जाद ४, ४८; शि
 ६, ११२; ११३; -ते शि ६, १८९.
 श्री-प्राण- -प्राय कृप २४.
 श्री-फल- -लम् शि ६, ३; -ले नार
 ९; का ११.
 श्रीफल-दल- -लैः न १, १; २, ३
 श्रीफल-मूल- -ले तारा ८३; १३
 श्री-बीज- -जम् रार २, ३६; ३, १;
 सौ १, २; ३; -जेन वरा ५, ३४.
 का ११; नार १०.
 श्रीबीज-सुग्म- -नम् रार २,
 २८; २९.
 श्री-द्वन्दावन- -सदा-मोद-दायि-
 न्- -विभ्याम् सार २४७; १८.
 श्री-द्वन्दावने(न-ई)शरी- -नी सार
 २५६; ५.
 श्री-भगवत्- -वम् गोच ६५; १;
 -वात् गह २; गी २, २; ११; ५५;
 ३, ३; ३७; ४, १; ५, ५, २; ६, १;
 ३५; ४०; ७, १; ८, २; ९, १; १०,
 १; ११; ११, ५; ३२; ४७; ५२;
 १२, २; १३, १; १४, १; २२; १५,
 १; १६, १; १७-१८, २.
 श्री-भूमि-नीला(ल-आत्मक)-
 लिम्का- -का सी १२.
 श्री-मत्- -मत् सार २३३; ६; शि
 २, २०; ४, ४; ७, १७; गी १०,
 ४१; -मताम् भव १, १३; गी ६,
 ४१; -मते त्रिवि ७, ३९; सार
 २५७; २३; व ४५७; ११;
 -मत्रिः शि ६, ४; ६४; १०५;
 २०५; -मात् छां ३, १३, २;
 मैत्रि ७, १; मुद्र ४; ह ६; का
 १२; शि २, ५; ३, ११; ४, ३०;
 ७, ४५.

श्रीमती^b- -ती राधा १, २०
 श्रीमत्-काम-कटाक्ष- -लब्ध-
 विभव-ग्रहो(हा-ई)म्-गङ्गाध-
 (र>)रा^c- -राम् व ४१; १५; १९.
 श्रीमत्-तम- -तः, -नम् कौ २,
 ६.
 श्रीमद्-गोपुर-मूषित- -तम्
 त्रि ४, १९.
 श्रीमद्-द्वयो(य-उ)पत्ति- -त्तिः
 द्व १.
 श्रीमद्-रमा-रमण-नलिन-
 भृङ्ग- -ङ्गाः स्व ६१; १८.
 श्रीमद्-व्याख्यान-मण्डप- -पे
 शि ७, ३४.
 श्रीमन्-नारायण- -णः त्रिवि ७,
 ४३; योशि ५, १५; -णस्य नापू
 २, ३; -णाय नाउ २, ६; -णे वा
 ३९.
 श्रीमन्नारायण-चरण- -गौ
 त्रिवि ७, ३९.
 श्रीमन्नारायण-परमात्मन्-
 -स्मा नापू ४, १६.
 श्रीमन्नारायण-सायुज्य-
 -ज्यम् ना ५.
 श्रीमन्नारायणा(ण-अ)ष्टा-
 (ष्ट-अ)क्षरा(र-अ)नुस्मरण-
 -णेन ता ३, ९.
 श्रीमन्-महागरुड- -हाय व
 ४६५; ५.
 श्री-म(द>)दा^d- -दा राधा १,
 २२.
 श्री-महाकाल- -लम् शि १, १.
 श्री-महावपत्ति- -तिः ग ९.
 श्री-महागरुड- -गह गह ६; ७;
 -हाय गह ३; ६.
 श्रीमहागरुड-मीत्य(ति-अ)र्थ-
 -र्थं गह २.
 श्रीमहागरुड-महाविद्या-

-द्यायाः गह २^d.
 श्री-महा-त्रिपुर-सुन्दरी- -नी व
 १९.
 श्री-महादेव- -वः लां २१६; २०.
 श्री-महावृत्त- -हाय त्रिवि ७,
 ३३.
 श्री-महालक्ष्मी- -क्ष्मै नपूर, १०.
 श्री-महावाक्य-महामन्त्र- -न्त्रस्य
 सु १, १८.
 श्री-महाविद्या- -द्या दे १०.
 श्री-महाविष्णु- -णवे नापू ३, १४;
 -ण्यम् कृ १.
 श्रीमहाविष्णु-सायुज्य- -ज्यम्
 मवा १२.
 श्री-माया- -वे रार ३, १.
 श्री-माया-मन्मथै(ध-ए)कै(क-ए)-
 क- -कम् रार २, १८.
 श्री-मुकुन्द-निधि^e- -धये त्रिवि
 ७, ४३.
 श्री-मयोदा- -दा सार २५२; १४.
 श्री-रत्नधामे(म-ई)शरी- -रीम् व
 ४५५; १७.
 श्री-रसिकशिरोमणि-द्वादशभेणि-
 -णयः सार २६२; १०.
 श्री-रसिकानन्द- -न्दः सार २३६;
 १५; -न्दम् सार २३१; ६;
 -न्दस्य सा २२६; १६; २२९;
 २३; २३२; ६; २८२; ३;
 -न्देन सार २२७; १; ३; २७१;
 १९.
 श्री-राजश्यामला^f- -ला रा ४२३;
 १९; २१; ४२५; २३; लम् रा
 ४२४; ६.
 श्रीराजश्यामला-मन्त्र- -न्त्रम्
 रा ४२३; १०.
 श्रीराजश्यामला(ता-अ)म्बा-
 -म्बाम् ता ४२४; २; ३; -म्बायाः
 रा ४२४; १४.

a) 'मौ इति श्रव्या । b) =गोपीविशेष- । c) कस. > वृस. > वस. । d) श्रीगरुड इति श्रव्या. संदि. ।

e) श्रीराममन्त्र इति निवा. संदि. ।

श्रीराजश्यामला-रहस्यो(स्य-उ)
पनिपद्^१- -पद्म रा ४२३:८.

श्रीराजश्यामलारहस्योपनि-
पद्-चेत्- -त्तारम् रा ४२३:४.

श्री-राधा^१- -धया सार २५१: १;
-धा सार २२०: १६; २७१:७;

-धाम् सार २३८. १७; २८५:२;
-ध्याया: सार २७१:६; ९; २८१:

१३; २८२:२; २८५:१२.
श्रीराधा(धा-अ)धर-सुधा-

शालिन्- -लिने सार २४७: १४.
श्रीराधा-ध्याना(न-आ)पन्न-

देहा(ह-आ)धमन्- -रमने सार
२७७: ६.

श्रीराधा-पुष्करिणी- -ण्याम्
सार २४६: १६.

श्रीराधा-श्री- -श्रिय: सार
२४९: १९.

श्री-राधाकृष्ण- -णस्य सार
२८१: २.

श्रीराधाकृष्ण-नामा(म-अ)ङ्कि-
(त>)वा- -ता: सार २५६: ५१^१.

श्रीराधाकृष्ण-पुष्करिण्यु-
(णो-उ)ङ्ग(व>)वा- -वाम् सार
२२६: २१.

श्रीराधाकृष्ण-रूप- -पाम्याम्
सार २४५: १४.

श्रीराधाकृष्णरूपिन्- -पिणे
सार २७७: १३.

श्री-राधारनिक- -क: सार २५५:
१६; -कस्य सार २५६: ८.

श्रीराधारनिक-मोहन- -नम्
सार २५२: २३.

श्री राधारनिकविरोमणि- -गि:
सार २५५: १८.

श्री-राधारनिकानन्द- -न्द्राम्याम्
सार २७६: ११; -न्द्रो सार २६०:
१२.

श्रीराधारनिकान्द-विनोद-
-द्राम्याम् सार २५१: १०.

श्री-राधिका^१- -कया सार २२५:
२१; २२; २२६:३; २२७:२३;

२२९: १८; २३०: २१; २३२:
७; २३४:१६; २३५:१७; २३६:

८; १०; ११; १६; २३८:८; २४०:
२३; २४१:२; ४; २४३:७, १३;

२४८: १६; २४९: १; २५८:
११; २६८:१३; १७; २०; २६९:

४; ७; ९; १३; १८; १९; २७१:
१९; २८३:२३; -का सार २७०:

२; -काम् सार २२३:२२; २२४:
१९; २२९: १४; २३; -काया:

सार २२१: २०; २२२: २१;
२२३: १८; २२५:१०; २२६:

८; १०; १३; १६; २२७:२; २२;
२२९: १७; २३३: ५; २३४:

१९; २३७: ८; २१; २३८: २;
२४१:२२; २५६: २३; २६३:

२३; २६८:१२; २७२:२; २८२:
७; -कायाम् सार २३०:४; -कायै

सार २३७: १६; २३८: ४.
श्रीराधिका(का-अ)र्थ- -र्थे सार
२३७: १९; २२.

श्री-राधिकारनिक- -कम् सार
२३४: १४.

श्री-राधिकारनिकानन्द- -न्द्रस्य
सार २५६: १४.

श्री-राधिकावल्लभ- -माय गार
२४७: १४.

श्री-राम^१- -०म रार २, ५६; -म:
रार १, ६; ७; ९; २, ३८; ५१;

राउ ३, २; ४; ता २, ४; मु १,
१, १८; २, १; २, १, १; -मम् राउ
३, ३; -मस्य राउ ३, १; -माय

रार २, ७३; रापू ४, १३.
श्रीराम तारक-पर-ग्रह-विश-

रूप-दर्शन^१- -०न लां २१४:
१३.

श्रीराम-मन्त्र- -न्त्राणाम् रा
४, १.

श्रीराममन्त्रा(न्त्र-अ)र्थ-
-र्थम् रार ५, १.

श्रीराम-मन्त्र-नाज- -जस्य राउ
५, १.

श्रीराम-संनिधि- -धो राउ ४, ५.

श्रीराम-संनिध्य-वश- -शाव
सी ७; राउ २, ३.

श्रीराम-सेवक- -०क लां २१५:
१५.

श्री-रामचन्द्र^१- -न्द्र: राउ ४, १^१;
५, १; लां २१६: २०; -न्द्रम्
मु १, ३, १; २, १, १; -न्द्रेण राउ
४, १^१.

श्रीरामचन्द्र-मनु-स्मरण-
-णेन राउ ५, ४.

श्रीरामचन्द्र-पञ्चक्षर- -रम् राउ
५, ४.

श्रीरामचन्द्र-सेवक- -०क लां
२१६: १६.

श्री-राम-लक्षण- -णो लां २१३:२
श्री-रुद्र^१- -०द्र रह १६.

श्री-रुद्धमी^१- -द्धमी: सी १, ३; व
४२७: ६.

श्री-वत्स^१- -त्सम् गोउ. ५३^१;
-त्साय त्रिवि ७, ४२.

श्रीवत्स-कौस्तुभ-वनमाला-
(ला-अ)ङ्कित-वक्षस- -क्षसम्
त्रिवि ७, ५०.

श्रीवत्स-कौस्तुभो(भ-उ)ररक-
-रकम् ध्या २८.

श्रीवत्स-लक्षण- -णम् गोउ
५३^१.

श्रीवत्स-लाञ्छन- -नम् गोउ
४७.

a) ०माधि^१ इति पा. ३ यति. नोष: द्र. । b) कस्य >पम >उस. उप. कर्तारि कृत् । c) ०म: इति ध्रान. ।

d) ०मस्य इति निगा., अथा. मंदि. । e) ०मलाञ्छनम् इति ध्रान. ।

श्रीवत्सा(सि-आ, कृति- -ति: सी
३१.

श्री-वर्ण- -नम् गोट २१.

श्री-वन्दुर्गा-सहामन्त्र- -न्त्रस्य
व ४२६:१.

श्री-वराह- -ह: ऊ ६३:३.

श्रीवराह-रूप-

श्रीवराहरूपिन्- -पिणम् ऊ
६३:१.

श्री-व(गो>)र्णा- -र्णा का १४.

श्री-वामीश्वरी- -नी सर १,४.

श्री-विद्या- -द्या व १८:वर्ष ३१३:३.

श्रीविद्या-सिद्धि- -द्धि: सी १,३.

श्री-विष्णु- -ष्णुम् य३; सु २९३:३.

श्रीविष्णु-वल्लभ- -भाय गर ३.

श्रीविष्णु-सायुज्य- -यम् सु
२९५:६.

श्री-वीरमङ्गल- -ङ्ग: लां २१६:२१.

श्री-वेदव्यास- -स: शु १,२,५.

श्री-वैष्णव- -व: दत्ता १,६; -वा:
सु २९४:२०

श्री-वृषभासु- -सु: सार २६३:१७.

श्री-शुक्र- -क महा २,३६: -क:
शु १,९.

श्री-शैल-दर्शन- -नात् योशि ६,
४२.

श्री-सती- -ति तुल ७०:१५;

७१:६; -स्त्रीम् त्रिभि ६, २२.

श्री-सदाशिव- -व: शु १,१२.

श्री-सरस्वती- -नी सर २,१.

श्रीसरस्वती-दशशोकी-महा-
मन्त्र- -न्त्रस्य सर १, ४.

श्री-सिद्धि- -द्धि: ह १०.

श्री-सुदर्शन- -नम् व ४५८:१४.

श्री-सूक्त- -क्तस्य सी १,१; -क्तै:
सी १,१:२.

श्रीसूक्त-गता(सि-आ)वर्धि-
(र्ध-आ)र्ध- -र्धां मौ १,२.

श्री-सूर्य- -सूर्य अक्षि १^१.

श्री-सूर्यनारायण- -ण: अक्षि १;
-णम् सू ५.

श्री-हनुमत्-प्रसाद-सिद्धव-
(द्धि-आ)र्ध- -र्धम् लां २१३:२.

श्री-हृत्क- -रकम् व ४,३६.

श्रव(श्री-आ)सि- -सि: सी १, १^१.

श्रीं त्रिभि ७, ३०; सार २, ९५; अक्ष
१,८; ह ७; दत्ता १,३^१; सी १,
२^१; नापु ३,९; १२; पारा ८^१;
सार २३२:११; श्री-श्रीं सार
२६०:२१; व ४६२:१.

✓शु, >शु, श्रावि, शुश्रूष >वि,
शुवि >धी सु^{१५}व ४४०:२२;

४४६:५; ४५१:१; ४५५:८.

शृणोति के १,७; प्र ४,२; पे ५,

१; छां १,२,५; ७,१२,१; २४,

१^१; वृ १,३,५^१; ४,१७,५,३; २,

४,१४; ३,२,६; ४,३,२,७; ४,२;

५,१५; ५,९,१^१; खे ३,१९; मै

२,८^१; मैत्रि २,६^१; कौ २,१३^१;

नृप २,१२; शृण्वन्ति खे २,५^१;

सार २७३:१; शि ७,१३९;

शृणोमि के २,२; अध्या ६७;

१अव १६; शृणुम: मै १,१; मैत्रे

१,१; शृणोतु मर २,१^१; सूता १,

४; पा ७,४; शृण्वन्तु १अव १६;

शृणुष्य अद्वैता १; शृणु हं २;

अना १५, वृजा ६,७; क्वि ५३;

१योत ४; नाप ३,१; त्रिवा २,

२४; सी ३३; श १; महा २,३६;

शृणुहि मना १,१३^१; शृणुष्वम्

सार १, ५; शृणुत सी १, १;

सार २२०:१; शृण्वानि छां ८,

१२,४; शृण्वाम वृ ४,१,२-७;

म १,६; अशृणवम् वृ ६,२,२^१;

शृणुवाक् वृ २,४,१४; ४,३,२७;

३१:५,१५; नाव ३१; नाप ६,

१८; त्रिभि ८,२३; गफ २५; सु

१,१,५०; सार २५०:५; वृ ५;

शि ४,३३; गी १८,७१; शृणुयु:

छां ७,१३,१^१; शृणुया: वृ ३,४,

२^१; सु^{१५}शृणुयाम प्र सुं मां अशि

अ अवि वृजा सां^१; नृप सां^१; २,

१५; नाप सी सां^१.

शुश्रुम ई १०; १३; के १, ३;

शुश्रुमो(म-उ)^१ मैत्रि १, २;

श्रोण्यसि गी १८,५८; श्रोण्यासि

का १,८,२; वृ १,५,२१; अ-

धीपम् वृ १, ५,३; ५, १४,४;

गा १२; गी १८,७४.

श्रूयते खे ६,८; गौ २,३; मै २,

४; मैत्रि २,४; मना २,१३,१^१;

ते ५, ४७; नाद ३३; त्रिभि २,

८, पं ६१; वरा ३,२; श्रूयन्ते मै

२,३; मैत्रि २,३; नाद ३५; त्रिभि

२, १२; २१ ३६:५; श्रूयताम्

नाप २; त्रिभि १, ५; पै २, ३.

अश्रावि अव्य ३.

श्रावयन्ति सार २२३:२१; शि

७, १३८; श्रावय ते १, ८, १;

श्रावयेत् क १, ३, १७; श ३६;

इ १०:७; सार २५०:११; चू

२०.

शुश्रूषन्ते छां ७,५,२.

शुश्रूषयेत् पै ४,८.

शुश्रुवस्- -र्वांम: शुवा ९.

शुश्रूषण- -णात् दृह ३.

शुश्रू(व>)पा- -पया सु १, १,५;

-पाम् योशि २,२.

a) °कम् इति षाण्डिक: निता.पठे. । b) धी:, अ° इति अथ्या. संदि. । c) =बोजमन्त्रविशेष- । d) 'भोम्' इति निता. । e) 'श्रीं' इति अथ्या. । f) तु. ग. १२३३c । g) श्र १,२५,१९ । h) 'श्रूयन्तु' इति श्रं १०, १३,१; आन. । i) श्र ५,४३,११ । j) श्र १०,७५,५ । k) श्र १०,८८,१५ । l) °पाम् इति निता. । m) श्र १,८९,८ । n) वैतु. °म: इति ताती. । o) श्र १०,११,१ ।

शुश्रूषा(पा-अ)र्थ-काम- माः
शि ७, ६५.

शुश्रूषा-लाम-भूजा(जा-अ)र्थ-
-र्थम् १ संन्या २, ८२.

शुश्रूषि(त>)ता- -ताम् वृद्ध, ४, १८

शुश्रूषु- -पवे वृष्ट १, १; सृता ६, ७;
वृष्ट २, १.

श्ववत्- -श्वत् कौ २, १४^१; ३, २;
-श्वतः गौ १०, १८; -श्वते मना

२, ४६^१; -श्वत्सु पित्र ३, ४;
-श्वत् वृष्ट, ४, ७; ४, ३, २७; त्रिता

३, २८^१; सार २, १९^१; वृष्ट २९;
१०^१; वृष्ट १, ५; गौ ५, ८; -श्वन्तः

क १, २, ७; छां ५, १, ८; १, ११;
वृष्ट १, ८; १, ११; १२.

श्ववन्वी(इती^०)- -न्यः(इत्यः^०)
सार २७५ : ८.

२श्रवण^०- -णम् शु ३, १३; ते ३,
४६; ५, १२; ३३; नाप ७; पै ३,
१९^१; अर्थादे ३९^१; भव ५, १९;

-णात् २ प्र ३५ : ११; नाड ३,
१४; -णाय क १, २, ७; छां ८, १२,

४; -णेन वृ २, ४, ५; त्रिवि १, २.
श्रवण-कीर्तन-स्मरण-वन्दन-

रत- -ताः सार २३५ : १३.
श्रवण-कीर्तन-स्मरण-वन्दन-

मेवनी(ल-उ)पकरण-दास्य-
माव^०- -वेन सार २२० : १०.

श्रवण-मनन-निदिप्यासन-
-नाति सु १, ३, ६.

श्रवण-मनन-निर्विचिकिप्स-
-भे पै ३, १.

श्रवण-माय- -प्राक् सां २, ३;
-त्रेण पं २८.

श्रवणा(ण-अ)दि- -दिभिः विप्र
१, ११.

श्रवणा(ण-अ)ध्ययना(न-अ)-
र्थ-प्रतिपेध- -घात् व्रसू १,
३, ३८.

श्रवणा(ण-अ)र्था(र्थ-अ)नुसं-
धान- -नम् पै ३, १.

श्रवणीय- -नम् छां १, २, ५.

३श्रवण^{११}- -णे कुं १९.

श्रवण-मुख-नयन-नासा-
निरोधन- -नेन सौ २, ४.

श्रवणा(ण-अ)हृष्ट-योग- -नेन
मैत्रि ६, २२.

श्रवणा(ण-अ)वधि- -धिं त्रिप्रा
२, ४३.

श्रवस- -वः ह १८^१.

श्रावित, ता- -तम् वृ ६, ३, ४; ताम्
सार २४४ : २^१.

श्रुत, ता- -तः छां ३, १३, ७; जाद
२, १६; सार २२० : १; तम् के १,
७; प्र ४, ५^१; तै १, ४, १; ऐ शार्ता^१;

३, ११; छां ३, १३, ७; ४, ९, ३; ६,
१, ३; ७, १, ३; वृ ६, २, २; मना

२, ९९^१; १०^१; कौ शार्ता^१म्;
वृजा ४, ३६; ५, ७; वृष्ट २,
८^१; सुधा ४; ते ३, ५०; ५४; ६,
४८; ध्या २, १२; नाद शार्ता^१म्;

नाप ४, २; ३८^१; ५, १; आबो
निर्वा सुद्र शार्ता^१म्; महा २, ७०;

योशि २, ४; पव ४ १२; २; अज्ञ
शार्ता^१म्; जाद १, ९; पं २८; गोड
६८; शा ३४^१; ३५^१; ३६; ह
२०^१; सौ सार व शार्ता^१म्; सु १,
१, ५२^१; इ ११; १५; सार
२२६ : २२; २२७ : १; २३७ :
१; २५१ : ६; २६० : १५; शि ५,
४४; मत् ३, १, १२; गौ १८,
७२; तम्-तम् प्र ४, ५; तस्य

गौ २, ५२; -ता सार २२७ : ९;
-ताः शा ८; -ते वृ ४, ५, ६; सार
२५१ : ५; -तेन क १, ३, २३;
सुं ३, २, ३; इ १२ : ३; -तैः शु १,
१६; -तौ गौ ११, २.

श्रुत-स्व- -स्वात् वसू १५; वसू
१, १, ११; ३, २, ३९.

श्रुत-पर(इरा^०)का(छा^०)छ-
-छाः सार २८० : ६.

श्रुत-महालील- -०लाः सार
२३४ : २१.

श्रुत-भाप्र- -प्रः सार २३० :
२०; -त्रे सार २७६ : ६.

श्रुता(त-अ)ध्ययन-संपन्न- -ज्ञाः
नाप १.

श्रुता(त-अ)नुमान-प्रज्ञा-
-ज्ञाम्याम् योसू १, ४९.

श्रुतो(त-उ)पनिषत्क-गार्य-
(ति-अ)भिधान- -नात् वसू १,
२, १६.

श्रुतवत्- -वान् गौ १८, ७५.

१श्रुति^{११}- -तयः गोच ६९ : १३;
१८; २०; भव २, १; तये १ प्र ३१;
२२; -तिः गौ ३, २३; मवि ३१;
अप्या ५९; दे १; जाद ४, ४२;
शा ३१; २ प्र ३६; १२; राधा २,
१०; भव ३, २; सां ३, ८०; ५,
१२; -तिभ्यः गोड ४४^१; -तेः
त्रिवि २, १^१; मत् २, १, २७; ३,
२, ४; ४, ४६; -स्या मवि ३२^१;
सां १, १४७.

श्रुत- -तम् लि ३१० : १८;
-तानाम् लि ३१० : ५; -ते वृजा
५, १२; जाद २, ६.

श्रुता(त-अ)श्रीत- -तेषु
लि ३१० : १८.

a) श्रु १०, १८, ११ b) श्रु २, २१, ११ c) श्रु १०, ७१, ४१ d) पा. १ यनि. शोषः प्र. । e) भाप. ।
f) धा^० इति श्रव्या. । g) इत. > मन्तो. वस. । h) = १ कर्ण- । i) वा. विवि. भवति । j) श्रु ३, ५३, १५ । k) तैश्चा
१०, ७, ११ । l) तैश्चा १०, ८, १ । m) ऐमा २, ७, ११ । n) श्रु २, ३३, ११ । o) तैश्चा ७, ४, १ । p) 'शुभिम' इति
भाप २, ९ । q) भाप २, ११ । r) = २ वेद- वा मन्त्र- वा । s) वृ. गृ. ५८०७k ।

श्रुति-तस(>) सांस् ५, ११.
 श्रुति-न्याय-विरोध- -धात्
 सांस् १, ३६.
 श्रुति-भोक्त- -कम् गु २५.
 श्रुति-लिङ्गा(श्-आ)दि--दिभिः
 सांस् ५, २१.
 श्रुति-व्याक्यो(क्य-उ)दित-
 -तम् भव ३, ५.
 श्रुति-विरोध- -घः सांस् ६, ५१;
 -धात् सांस् ६, ३४.
 श्रुति-नासन- -नम् नाप ५, १.
 श्रुति-शास्त्र- -स्त्राणि अद्वैमा १०.
 श्रुति-नसार-
 श्रुतिसार-क- -कम् योशि
 ६, २.
 श्रुति-स्मृति-पुराणे(ण-इ)ति-
 हास- -स्नानाम् वसु २८.
 श्रुति-स्मृति-विभ्रम- -भैः महा
 ४, ४१.
 श्रुति-स्मृति-सदाचार-धारणा-
 प्यान-कर्मन्^० - -मैणः^० अक्षि
 ११.
 श्रुति-स्मृती(ति-इ)तिहास-पुरा-
 -णाधि ह २.
 श्रुति-स्मृत्यु(ति-उ)क्त- -मार्ग-
 -मैण भव २, ६७.
 श्रुत्य(ति-श्)नुष्ठान-मार्ग- -मैण
 नाप ३, १०.
 श्रुत्या(ति-श्)दि- -बलीयस्त्व-
 -स्व्यात् वसु ३, ३, ४५.
 श्रुत्यु(ति-उ)क्त- -क्तः भव ४, १.
 श्रुत्यु(ति-उ)त्पत्ता(ल-आ)म-
 विज्ञान- -प्रदीप- -पः वरा २,
 ४५.
 श्रुति- -तिः छां ३, १३, ८; -न्या
 आप्या ४.
 श्रुति-परापण- -णाः गी १३,

२५.
 श्रुति-विप्रतिप(ल>)ज्ञा- -आ
 गी २, ५३.
 श्रुति^०- -सेः वृ ३, ४, २; ४, २,
 २५.
 श्रुत्वा क १, २, १३; ३, १६; ऐ ३,
 ६; शु १, ७; १योत १; नाप ३,
 २३; महा ४, ३२; योशि ६, २;
 अव्य ७; त्रिता १, ७६; वृह ३.
 श्रुयमाण,णा- -णा सार २७६:९;
 -णे नाद ३६.
 श्रुयमाण-त्व- -त्वात् त्रिवि ३, २.
 श्रोतव्य- -व्यः वृ २, ४, ५; ४, ५, ६;
 -व्यम् प्र ४, ८; सुबा ५, ६; ९;
 ते ४, २०; नाप ५, १; -व्यस्य गी
 २, ५३; -व्ये सुबा ५.
 श्रोतुम् शु १, ११; योशि २, १; पाशु
 १, २; रुजा ३, १; गार ४०५:२.
 श्रोतु-काम(म>)मा- -मा सार
 २५६: १२.
 श्रोत्- -त्ता प्र ४, १; छां ७, ८-९,
 १; वृ ३, ७, २३^१; मैत्रि ६, ७;
 ११; योशि २, ५; १आ १; २आ
 २; त्रिता ५, १; -तारम् ३, ४,
 २; वी ३, ८; रापु ४, ३२; ग ४;
 -सारी इ ११: २; -सुः वृ ४, ३,
 २७; शु ३, ६; -वृ वृ ६, ८, ११;
 -नृणाम् इ १०: १८.
 श्रोत्र^१- -त्रम् के वां^१; १, २; ७;
 प्र २, २; ४; ४, ८; ते १, ७, १;
 ३, १, १; ऐ १-२, ४; छां वां^१;
 १, २, ५, ७, ३^१; २, ७, १; ११, १;
 ३, १३, २; १८, २; ६; ४, ३, ३; ८,
 ३; ५, १, ४; १०^१; १४; ७, १; २०,
 २; ८, १२, ४; वृ १, ३, ५^१; १५; ४,
 ७; १७; ५, २१^१; २, १, १७; ४,
 ११; ३, २, ६; १३; ७, १९; ९,

१३; ४, १, ५^१; ४, १८; ५, १२; ६,
 १, ४; १०^१; १४; २, १२; मै
 वां^१; मैत्रि ६, ३१; मैत्रे आरु
 वां^१; मना २, १५^१; ७२^१;
 ८०^१; वी २, १^१; २^१; ३; ४; १३;
 १४; १५^१; ३, २; ३^१; ४-७; ४,
 १९; सुबा ५; ६; ९^१; ते ४, १०; ५,
 ४७; योचू वा वां^१; शारी १;
 ७; महा १ संन्या अव्य कुं सावि
 वां^१; पाशु २, ९; ११; रुजा
 जाद जावा वां^१; दत्ता १, ६;
 २ प्र ३३: ८; भव २, १६; पित्र
 ३, ८; ६, ४; योसु ३, ४२; गी १५,
 ९; -त्रस्य के १, २; वृ ४, ४,
 १८; वृ २, २; ३; पाशु २, ११;
 -त्रयोः वृजा ७, ८; नाप ६, १;
 भ १, ६; २, २; -त्राणि छां ५, १,
 १५; २वा ११^१; -त्रात् ऐ १, ४;
 वृ ३, ७, १९; वृवा ११^१; वर
 ३, ५०; -त्राभ्याम् ते ५, ४७;
 -त्राय वृ ६, ३, २; -त्रे प्र २, १२;
 सुं २, १, ४; छां ५, २०, २; वृ १,
 ३, ५; ३, ७, १९; ६, १, ४; गर्भ १;
 सुबा ५; मां १, ७, ५, २; कुं १९;
 जाद ६, ३, ४; प्रा ४, १; सौ २,
 ३; २शिसं ११; वृ ४३६: १०;
 -त्रेण के १, ७; ऐ ३, ६^१; ११; छां ५,
 १, ८; १; ११; वृ १, ७, १७; ३, २,
 ६; ६, १, ८-१२; वी १, ७; २, १;
 १४^१; ३, २, ४; ६; जाद २, १६.
 श्रीय- -नः वृ २, ५, ६^१; ३,
 ९, १३.
 श्रोत्र-ता- -ताम् पाशु २, ११.
 श्रोत्र-व्यक्-क्षुत्-लिङ्गा-प्राण-
 -णाः पै २, १६; त्रिमा १, ५^०.
 श्रोत्र-व्यक्-क्षुत्-नसन-प्राण-
 -णाः सू १६.

h) भू^० इति पा. १ यनि.शोषः इ. (त. सं. टि.)। i) ह्य. > व.। o) दि २। d) = २धवण-। e) = ३धवण-।
 f) सप्त 'श्रोत्रा' इति निवा.। g) पाठ ३, १५, २३। h) ट. ग. वृ २८९. i) सौ १९, ६०, १। j) तिस्रा १०,
 ६४, १। k) ट. ग. वृ ३७८. l) मा ३१, १२। m) धो^० इति निवा.। n) ^०णानि इति निवा.।

श्रोत्र-स्वर्ग-अध्यादि-आदि-
 श्रोत्रत्वगध्यादि-स्वादि-
 कर्मन्द्रिय-याणि कर् ३३
 श्रोत्र-स्वर्ग-लोचना(न-आ)दि-
 -दयः वरा १, २.
 श्रोत्र-द्वय-यम् योशि ५, २२.
 श्रोत्र-द्वार-द्वारा त्रिमा १, ९.
 श्रोत्र-निरोधन-नात् जाद ६,
 ३१.
 श्रोत्र-पति-न्तिः तै १, ६, २.
 श्रोत्र-मय-यः वृ ४, ४, ५.
 श्रोत्रा(त्र-आ)काश-शयोः
 योस् ३, ४२.
 श्रोत्रा(त्र-अ)क्षि-कटि-गुल्फ-
 प्राण-गाल-दिफरदेन-शेषु शां
 १, ४.
 श्रोत्रा(त्र-अ)क्षि-सप्य-प्ये
 जाद ४, २८.
 श्रोत्रा(त्र-आ)दि-दीनि सारो
 १; पित्र १, ११; गी ४, २६.
 श्रोत्रादि-कारण-गानि
 त्रिमा २, ११६.
 श्रोत्रादि-ज्ञाने(न-द)न्द्रिय-
 नैः पै २, ३५.
 श्रोत्रा(त्र-अ)पित-सः कौ ३, ३.
 श्रोत्रो(त्र-ऊ)रु-कटि-ठ्याम्
 त्रिमा २, ८२.
 श्रुं^३ तार ३, १.
 श्रुत-१-३श्रुति-धुत्वा √शु द.
 श्रुं^३ लां २१६: ९.
 ध्रुयमाण-√शु द.
 श्रेणि, गी^३-गयः सार २२२: ६;
 २२४: १३; २२५: ११; २३४:
 १; २५३: ५; ८; २६४: १; २६५:
 ११; २७०: १३; २७४: ७; -निः
 सार २६७: १०; १९; २६८: २;
 -निष्पु सार २२२: ८; २५३:
 ५; २६३: ११; १६; २६४: १;

२६६: ४; १४; २७०: ५; २७१:
 ४; -णी सार २६३: २१; २६६:
 ५; १८; २७१: ६; -णीनाम्
 सार २६३: २०; -णीषु सार
 २३३: १८; -गयः सार २७०: २१;
 -ग्याम् सार २६५: २२; २६७:
 ४; २७०: २१; २७१: १०;
 -ग्याम्-ग्याम् सार २७९: ९.
 श्रेणि-संचार-रः सार २६५: २२;
 -राः सार २७२: ८.
 श्रेणी-सप्तम-द्वार-रम् सार २६६:
 २३.
 श्रेयस्^३-वः क१, २, १^३; २^३; सुं१, २,
 ७; १०; वृ १, ४, ११; १४; मैत्रि
 ४, ५; त्रिमा २, २८; शां २, १;
 अक्ष २, ७; ४, ४३; गोत्र २; भव
 १, ३९; गी १, ३१; २, ५; ७; ३,
 २; ११; ३५; ५, १; १२, १२; १६,
 २२; -यसः वृ १, ४, ६; -यसि त्रिमा
 २, २६; -यसे ऋषि ३०; अक्ष ५,
 २७; -यांसः तै १, ११, ३; -यांसम्
 वृ १, ४, ११; अव्य ७; -यांसि
 त्रिवि ५, ७; -यान् तै १, ४, ३; छां
 ४, १६, ५; ५, १, ६; सांका २; गी
 ३, ३५; ४, ३३; १८, ४७.
 श्रेयस-काम-सः नाप ५, २८; नैः
 सुता १, ३६.
 श्रेयो-विप्र-ज्ञाः त्रिवि ५, ७.
 श्रेष्ठ, छां^३-ष्ठः छां ५, १, १^३; ७^३; १२;
 २, ६; वृ १, ३, १८; ५, १६; २१;
 ६, १, १^३; अशि १, ७; नाप ५, ५;
 श ४; प१४२०: १; अक्षि २०;
 पाशु २, १५; गोत्र १८; १ १५;
 लि ३१०: ६; वृ २, १७; मसू
 २, ४, ८; गी ३, २१; -ष्ठम् कृ १,
 २, १७; छां ५, १, १; २, ७^३; १,
 ६, १, १; त्रिमा १, २२; २, ५; उजा
 १, ६; गुष्ठ०; वृ २, ६; छा अक्षि

२९; गोत्र ५; -ष्टात् मसू ४, १७;
 -ष्टानि कौ २, ११^३; -ष्टाम् त्रिमा
 १, ७९; -ष्टाय छां ५; २, ४; वृ ६, ३,
 २; मना २, १८^३; -ष्टैः कौ ४, २०^३
 श्रेष्ठ-वः -ष्ठ्यम् छां ५, २; ६; कौ
 ४, २०^३; इ १४: १९; -ष्ठ्याय
 वृ ५, १३, २; ३; कौ २, ६^३; ४, १५.
 श्रेष्ठ-तम-सः नृपु २, १३^३; -सम्
 गोत्र ३; -माय २३ ३६: २०^३.
 श्रेष्ठ-तर-रः ४४.
 श्रेष्ठ-पण्डित-तान् अक्षि ११.
 श्रेष्ठा(ष्ट-आ)सङ्ग-ङ्गः अक्षि २६^३.
 श्रेष्ठिन्-ष्ठिनम् कौ ४, २०^३; -ष्टी
 कौ ४, २०.
 श्रेष्ठं^३ लां २१६: ९.
 श्रो(ण>)णा^३-णायै वृ ४३८: ७.
 श्रोतव्य-श्रोतुम्, श्रोष्ट-श्रोत्र-
 √शु द.
 श्रोत्रिय^३-यः वृ ४, ३, ३३^३; अशि
 ७, १; महाद, ८३; गोत्र २; च२१:
 ७; ऊ ६४: १३; वृ ३१८: ३;
 -यम् सुं १, २, १२; नाप २; रुद
 ३५; सु १, २, ६; -यस्य तै २,
 ८, २^३; ३^३; ४^३; वृ ६, ४, १२; कर्
 ३०; -याः सुं ३, २, १०; वृ ६,
 १, १४; शा ५.
 श्रोत्रिय-स्वर्ग-हरण-णात् रात्र
 ५, १४.
 श्रोत्रिया(य-अ)गार-रात् पप
 ४१८: १३.
 श्रोत्रियागार-पचना(न-अ)मि-
 समुद्रव-वम् वृजा ५, ५.
 श्रोत्रिया(य-अ)ङ्ग-ङ्गम् १ संन्या
 २, ६४.
 श्रोत्रं^३ लां २१६: ९.
 श्रोत्र-श्रीय-√शु द.
 श्रुद्धण-हणम् छां २, २१, १.
 शुद्धण-वय-आमि सि ६, २५, ८.

भा) समाहारे द्रग. । b) = शोत्रयप्रविशेष- । c) 'श्र' इति आद्या. । d) वैपरी यद. । e) श्र ५, ८१, ११ ।
 f) श्र २, ११, १ । g) तीका १०, ४४, १ । h) 'श्री' इति आत्र., छांभा ६, २०: । i) मा १, १ । j) विप. । वैपरी यद. ।

√श्वय
 श्वय-धे महा ५, ६५.
 √शिलप, श्विप्यते छां ४, १४, ३; अथ्या
 ५१; श्विप्यन्ते छां ४, १४, ३.
 श्विष्ट-ष्टः राष्ट्र ४, ९; महा ५, ९.
 श्वेत्सम्पत्-सम्, सम्पणः निरु १, ३;
 सम्पणम् योधि ५, २४.
 श्वेत्सिमिक-कम् व ४३३:
 २०.
 श्वेत्सम्-हर-रम् शां १, ७, १४.
 श्वेत्समा(ध्म-श्र)त्-
 श्वेत्समात्-क-कम् रुजा २,
 १७.
 श्वेत्समा(भ-श्र)दि-दि शां १,
 ४; दीनाम् नाप ४, २७.
 श्वेत्सि^१ व ४२७: २३.
 श्वेत्सोक-कः प्र १, १०; ३, ११; ४,
 १०; ६, ५; तै २, १-७, १; ८, ५;
 छां २, २१, ३; ३, ११, १; ५, २,
 ८; १०, ८; २४, ४; ७, २६, २; ८,
 ६, ९; वृ १, ५, २३; २, २, ३; ४,
 ४, ६; वृ ६, ५; ७, १५; ९,
 २०; अता ८; गोपू १३; २प्र
 ३४: ४; स्व ६१: ४; ११; २३;
 वपू १, ५; -कम् वृ १, ४, ७;
 -काः वृ १, ५, १; २, ४, १०; ४,
 १, ११; ४, ८; ५, ११; श्वे २, ५९;
 मै ४, ४, १; मैत्रि ६, ३२; ३४;
 वृजा ३, १; ४, १; १०; ५, ७; त्रिभा
 २, १; राउ २, १; ५, ४; शां १,
 ७, १; ३, १; कुं ९; १८; त्रिता ५,
 १; गोपू ८; १९; गोव २७; ता
 २, १; रुजा १-२; १; कन १; या
 २, १; २संन्या १७: ८; वरा ४,
 १; मु २, २, १; छाग २५: १७;
 कथु ३, १; -के २प्र ३४: ४; -केन

की १, ६; -के: वृ ३, ९, २८, १; -की
 प्र ५, ५; वृउ ४, ५; गोच ६९: १७.
 श्लोक-कृष्-कृष् तै ३, १०, ९.
 श्वय(>शुान्)-शुना ते ६, १५;
 शुनि गो ५, १८; श्वनि: महा ३,
 ४२; या २, ८; श्वभ्यः छां ५, २, १;
 वृ ६, १, १४; आ छां १, १२, २;
 श्वान: छां १, १२, २; वृ ३, ९, २५;
 छाग २५: १४; स्व ६१: २२;
 श्वानम् इ १६: ११.
 श्वोच-व: छां १, १२, १.
 श्वान-नेन ते ६, १६.
 श्वान-भर्दभ-भो स्व ६१:
 २२.
 श्व-पचा-च: सार २७९: ११;
 -चस्य अज्ञ ५, १०१.
 श्वपच-गृह-दे पै ४, ५.
 श्वपचा(च-श्र)धम-म: तुल
 ७१: २०.
 श्व-पाक-के गो ५, १८.
 श्व-मूय-सदृश-शाम् १संन्या २,
 ७५.
 श्व-योनि-निम् छां ५, १०, ७.
 श्व-यद-दा: वृ २, ४, १६; -दनि
 छां ७, २, १; ७-८, १; १०, १.
 श्वय-भ्र-भ्रम् छां २, ९, ७.
 श्वयशुर-रा: गो १, ३४; -रात् गो
 १, २६.
 √श्वस्, श्वसति छाग २५: १३.
 श्वस-सत् गो ५, ९.
 श्वसन-नम् त्रिभा २, १३७; -ने
 वृजा ४, २१; -नेम त्वा ९३;
 गोचू ६६.
 श्वस-स: गोचू ११७; -सै: वरा
 ५, ३.
 श्वस-प्रश्वस-सयो: योत् २,

४९.
 श्वस-रूप-वेण शां १, ४.
 श्वस्(>): क २, १, १३; वृ १, ५, २३;
 भव १, ३८.
 श्वो-भाय-वा: क १, १, २६.
 श्वो-भूत-ते छां ४, ६-८, १.
 √श्वि, श्वयत् वृ १, २, ७.
 श्वयितुम् वृ १, २, ६.
 √श्वित्(पषा.)
 श्वित्-श्वित्-श्री इ १७: ५; वृ ९.
 श्वित-
 श्वेत, ता-त: छां १, १२, २;
 इ १९: १५; -तम् वृजा ४, १;
 त्रिभा २, १३७; वव २, २२;
 -तस्य शुषा ४; -ता गार ४०६:
 १३; -ता: मना २, ६४; रुजा
 १, ९; -तात् म २, २; रुजा १,
 १०; -ताम् का ४; गार ३१;
 -तेन म २, २; -तेभ्य: वृ ३, ८,
 ९; तै: गो १, १४.
 श्वेत-केतु-शु: छां ५, ३, १;
 ६, १, १; वृ ६, २, १; -शुम् छां ६,
 ८, १; वी १, १; -शो छां ६, १,
 १; २; ८, ७, ९, ४; १०-१६, ३.
 श्वेत-केतु-कशु-निदाय-
 कपम-दुर्वास-संवर्तक-दत्ताश्रेय-
 दैवतक-
 श्वेत-केतु-कशु-निदाय-
 प्रप-मदुर्वास-संवर्तक-दत्ताश्रेय-
 दैवतक-यत् नाप ३, ८६.
 श्वेत-गन्ध-माप्या(व्य-श्र)-
 तुलेपनी(निना)-नी(निना) गार
 ४०६: २०.
 श्वेत-गन्धा(न्ध-श्र)क्षत-
 तै: रा ४२५: २०.

a) =कलविशेष- । b) =भीजगन्त्रविशेष- । c) यथा. वैश्व यद. । d) कः इति श्र १०, १३, १;
 श्वान. । e) वैश्व यद. । f) °नाम् इति श्वप्या. । g) °श्वपच- । h) पृष. दीपः (पा ६, ३, १३७) । i) °स(ति)°
 इति वे. । j) °रोगविशेष- । k) °श्वद्व इति निवा. । l) °वर्णविशेष- । m) °वर्णविशेषवत्- । n) तैश्यामा १०,
 १४ । o) °श्व इति पा. १ यनि. शोषः द. (तु. नाट्.) । p) पा. १ यनि. शोषः द. ।

श्वेत-चञ्चल-त्राय त्रिवि७,४८
 श्वेतजा^१-जा ४७.
 श्वेत-द्वीप^१-वे क ६३:३.
 श्वेत-पुरी^१-री राधा ४,५.
 श्वेत-पुष्प-श्वै.रा४२५:२०.
 श्वेत-सूक्तिका-कामुक६३:५
 श्वेत-मूस्ना-स्ना का ५.
 श्वेत-मृद्-००मृत् क ६३:
 १३; नार ४.
 श्वेत-रक्त-पीत-तानि सार
 २२२:१४.
 श्वेत-वर्ण,र्णा-र्णः वल् ९; व
 ४४०:१६; ४४२:२; -र्णम् ५या
 ९३, २; -र्णा मना २, ३५७^०;
 वृजा १,१; २प्र ३६:१; -र्णाम्
 सौ ३,१; -र्णे वि १.
 श्वेत-वास^०-
 श्वेतवासि(न्<>)नी-नी
 गार ४०६:१९.
 श्वेता(त-अङ्ग)ङ्गी-ङ्गी
 शां १,६; गार ४०६:१९.
 श्वेता(त-अ)श्वतर^१-रः श्वे
 ६, २१.
 श्वेतो(त-ऊ)र्ध्व-पुण्ड्र-
 धारिन्-री नाप५,१; १संन्या
 २,१३.
 श्वेत^१-तम् सुवा ९^१; १५.
 श्वेते(त<>)ता^१-ता रापु ४,६०.
 श्वोभाव-श्वोभूत-रवस् द.

१२.
 पं-कार-०र अक्ष ५.
 पयस्^१ नृप १,१३.
 पण्ड^१-ण्डः नाप ३,१; १संन्या२,३.
 पण्ड-क-कः नाप ३,६२^६; ६४^६.
 पण्ड^१-ण्डः नाप ३,२^१.
 पयस्^३-पद् छां ४, २, १;२; १५, ५;
 ५, १०, १-३; वृ ३, ९, १; ७^३; ६,
 २, १५; १६; नृप ५, २; ५या ४१;
 नाप ३, ६९-७१; योचू २; सुद्र
 ४^१; रार २, २२; रापु १, ८१^१;
 योशि६, ३३; पद्-पद् वृजा७, ८;
 पद्सु नृप ५, ८; शुभ; पद्भिः श्वे
 १, ४; मैत्रि६, २८; नाप ३, ६२;
 अता ६; सौ २, ३; सर ३, ३१;
 भव ३, २९; पण्णाम् नृप ८४:
 १७; २१; ८५:५; १०१^०; पो ५.
 पद्-कर्म-संसिद्ध-द्धः वपु २, २.
 पद्-कला-ला पो ४.
 पद्कला-त्व-स्वम् पो ४१^०.
 पद्-कुक्षि-क्षिः मना २, ३५७^०.
 पद्-कृत्वस्(>)शां १,५; जाद ५,
 १०.
 १पद्-कोण^१-णेपु त्रिवि७,३०; रार
 ३, १^१; सूता ६, ३.
 पद्कोण-कपोल-लेपु त्रिवि ७,
 ३०.
 पद्कोण-ग(>)गा-गाः श्या
 ११.
 पद्कोण-शक्ति-क्तयःनापु६, ६.
 २पद्-कोण^१-णम् रार ३, १^१; रापु
 ४, ३४; योशि १, १७७; ५, १४;
 नापु ६, २; ५; वपु ३, १; -णे वपु
 २, ४.

पद्कोण-चक्र-क्रम त्रिवि ७,
 १२; ३०.
 पद्कोण-पार्श्व-श्वै रार ३, १.
 पद्कोण-मध्य-ध्वै रार ३, १.
 पद्कोणमध्य-स्थ-रामाङ्को-
 (ङ्क-उपरि-शोमि(त<>)ता-
 -ताम् रार २, ९७^०.
 पद्-कोणक-कम् १योत ९५.
 पद्-कोश-रहित-तः मैत्रे ३, १८.
 पद्-कोश-विनिमुक्त-कम् सुद्र ४.
 १पद्-चक्र^१-क्रम योचू ३.
 पद्चक्र-वासि(न्<>)नी^१-००नि
 हंपो ५.
 २पद्-चक्र^१-
 पद्चक्र-मण्डलो(ल-उ)द्धार-
 -रम् त्रिवि ७६.
 पद्-चत्वारिंशत्-
 पद्चत्वारिंश-श्वे अक्ष ५.
 पद्-छता(त-अ)र-चक्र-क्रम
 त्रिवि ७, ८.
 पद्-छांभव-संपन्न-सः कामे १५.
 पद्-त्रिंशत्-शत् वरा १, ७; २प्र
 ३४: १२; श्वतम् रुजा १, १६.
 पद्त्रिंश-श्वे अक्ष ५.
 पद्त्रिंशत्-तरव-रवानि वरा
 १, १.
 पद्त्रिंशत्तरवा(त्त्व-अ)तीत-
 -तः नाप ८, १; तु ६^११.
 पद्त्रिंशत्-भस्त्रे(त्र-ई)श्वर-रः
 पो ४२२; २०.
 पद्त्रिंशत्-दल-पद्म-श्वम्
 त्रिवि ७, ४१.
 पद्त्रिंशत्-लक्ष-योजन-नम्
 तु ९.

प

प^१ सूता २, ५.
 पं^१ भाष ३९६:३; व ४३६:६; हंपो

a) पा.१ 'श्वे(त<>)ता वा' इति द्विपदः शोधः द. । b) त्रेषाम्वा १०, ३५ । c) उप. <√वस (आच्छादने) ।
 d) =श्रुतिविशेष- । e) धा. अर्थः! =वायुविशेष- । f) धा. अर्थः! =सकार-बीजाक्षर- । g) पा. वृत्तितः । h) =बीज-
 मन्त्रविशेष- । i) 'भीषण->-णम्' इत्यस्त्योत्तरांशः ।) ध्यु १ । k) प^० इति अग्या । l) ण्डः इति अग्या ।
 m) वैपश् यद. । n) तु. गपु. वृ४१७e । o) पा.१ 'पद्' इति शोधः द. । p) 'दकालि' इति पा.१ यत्नि. शोधः द. ।
 q) द्विग. । r) षस. । s) 'रिसंरिथ' इति अग्या । t) उप. <√वस (निवाते) । u) 'त्तरवायुतः इति पा.१ यत्नि.
 शोधः द. (तु. नापु.) ।

पट्-पत्र- -त्रम् सूप ५, २.
 १पट्-पद्- -दः १संन्या२, ३४; वपू
 १, ६; -दम् वपू १, ५; ६.
 २पट्-पद्^{१०}-
 -पट्पद-वत् सांस् ४, १३.
 पट्पद-वृत्ति- -रवा नाप९, २०.
 पट्-पदा(द-अ)र्थ-
 वट्पदार्थ-नियम- -मः सांस्
 ५, ५८.
 पट्पदार्थ-वादिन्- -दिनः सांस्
 १, २५
 पट्-शत- -तम् त्रवि ७९; -तानि
 हं ११; योचु ३२; वरा ५, ३.
 पट्-सं(ल्य)>ख्या- -रूपया हं ११;
 रार ३, १.
 पट्-सप्त-
 पट्सप्त-धा शार ५, २.
 पट्-सहस्र-लक्ष-गायत्री-जप-
 फल- -लम् रुजा ३, १.
 पट्-स्वर-भि(ल)>ष्वा- -षया थो
 २, ३८.
 पट्-स्वरा(र-आ)रूढ- -वेन सूप ४.
 १पट्-अक्षर^१- -राणि काम ४.
 २पट्-अक्षर^१- -रः रार२, १६; १४;
 ५, १; राउ ५, ५; ६; दत्ता १, ३;
 -रम् सूप ५, ८; राउ १, २; ३, ७;
 दत्ता १, ३; नापू ३, ७; -रस्य वृजा
 ३, १२; रार ५, २.
 पट्शशा(र-अ)धिकार- -रः रार
 १, ७.
 १पट्-भङ्ग^१- -ङ्गम् रार २, १२;
 २९; यो २, ३८; सौ १, २; -क्रानि
 शु १, ११; रार २, ९६; -ङ्गेन
 सुवा ३.
 पट्ङ्क-क- -कम् रार २, ७; २३;
 ९३.
 पट्ङ्क-कलितव- -ताः नापू ४, २०.

पटङ्ग-भ्यास- -सः सावि १०.
 पटङ्ग-विद्- -विदः २प्र ३५;
 २२.
 २पट्-भङ्ग^१- -ङ्गः मैत्रि६, १८; अना
 ६; -ङ्गम् सूप ४; इ १० : ८;
 १९ : ११.
 पट्-अहुल-दशा(श-अ)शक्ति-
 -तिः पाशु १, २४.
 पट्-अप्य-परिवर्तक- -कः त्रिता
 १, ४९.
 पट्-अन्वय-सहावन- -नम् योशि
 १, १६६; ५, ३.
 पट्-भर- -रम् सूप ५, २; -रे
 प्र १, ११.
 पट्-भर्त्स(१०)^१- -र्त्स(१०)^१ सूता
 २, १९.
 १पट्-भर्त्स^१- -र्त्सः रार २, ८९.
 २पट्-भर्त्स^१-
 पट्भर्त्स-वत् रार २, २७; ५१; ७४.
 पट्भर्त्स-वेद्य- -द्यम् सूता १, २६.
 पट्-भवस्था-परिव्यास- -जी महा
 ५, १८.
 पट्-भ्र- -भ्रम् सूता ५, ३.
 पट्-भ्र- -भ्रम् त्रिता २, ५७; -स्ते
 रापू ४, ४३.
 पट्-भ्र-क- -कम् योशि ५, ८; -के
 योशि १, १७२.^१
 पट्-आधार- -रम् मं ४, १, ५.
 पट्आधार(र-अ)पवरक- -कम्
 योशि १, १६६; ५, ३.
 पट्-मानन^१- -नं तै२, १४; ८०;
 -नात् जावा ४.
 पट्-आश्रय- -यम् गर्भे १.^१
 पट्-ऊर्मि-
 पट्ऊर्मि-रहित- -तः नाप ७.
 पट्ऊर्मि-यजैम् पट् २.^१
 पट्ऊर्मि-यजित- -तः नाप ३, ८६;

पप ४२०: १३; -तम् सुदं ४.
 पट्मि-पट्भावे(व-इ)प्यादि-
 त्वे-दोष-रहित- -तम् वम्
 २३.
 पट्-क्रतु- -तुः तै ६, ५७.
 पट्-गुण-प्रसिद्ध- -दम् -सार
 २७२ : १.
 पट्-गुण-योग-युक्त- -कम् गर्भे
 १.
 पट्-जल-
 पट्ज-ज्वभ-गान्धार-सभ्यम-
 धैवत-निषाद- -दाः गर्भे १.
 पट्-जन्म-कृत- -तम् रुजा ३, १.
 पट्-ज(८)स्त- -स्तः शि २, ६७.
 पट्-दल- -लम् योचु ४; सौ ३, १.
 पट्दल-पत्र- -पत्रम् त्रिवि ७,
 ३०.
 पट्-दश-शिरस- -रः दत्ता १, ६.
 पट्-दीर्घ-युक्त- -क्तः रार २, २३.
 पट्-धीज- -जैः सूता १, ३२.
 पट्-भाव-विकार-ध्वन्य- -न्यः
 नाप ७; मुह ४; पप ४२०: १३.
 पट्-भाव-विकृति- -तिः, -तिम्
 वरा १, ८. १. १.
 पट्-भूमिका-चिरा(र-अ)भ्यास-
 -सात् वरा ४, १०.^१
 पट्-योनि-गर्भा(भि-अ)घ्नत>)-
 न्ता- -न्ताः षी ४२२ : ११.
 पट्-नस- -सः तै ६, ५७; -सैः रार
 ४, २.
 पट्-नश्य- -नश्यम् रुजा २, ६.
 पट्-वर्ण- -र्णः रार २, १८; १९.
 पट्पण-वत् रार २, ९०.
 पट्-विंशत्^१-
 पट्विंशत्-अक्षर- -रः रार२, ७७
 पट्विंशत्-अष्टगुलि- -लिः योपू
 ९, ३.^१

a) विप. । b) =मयुद्ध- । c) द्वि. । d) धन. । e) ङ्गेन इति शब्दा. । f) राहृ-ङ्ङक्षरम् इति
 निता. । g) पा.इ यनि. शोधः ६. । h) °द्वं इति शब्दा. । i) °यजितः इति निता. । j) श्रुमिपट्कवि इति शब्दा. ।
 k) उप. =विंशति- । l) °लीः इति शब्दा. ।

पद्-विंशति-

१पद्विंश^a - -शे अक्ष ५.
 २पद्विंश^b - -ना: गौ २, २६.
 पद्विंशक^c - -क: मन्त्रि १४^d;
 सं १, ४, ३^e; सार २९१: २०;
 शि १, १४; -कम् चू १३^f.
 पद्-विकार-विहीन - -न: मैत्रे ३,
 १८.
 पद्-विकारा(र-आ)दि - -दि ते ६,
 ५७.
 पद्-विध, धा - -घ: गर्भ २; नाप ५,
 १; रार २, ८; १६; ५०; १संन्या
 २, १३; नार २३८: २३; -घम्
 नाप १^g; -घा छां ३, १२, ५;
 सार २८०: ११.
 १पण्-णवति^h - -वि: पाशु १, २४;
 -रय: वरा १, १५.
 पण्णवति-कोटि-नामन्-
 -मानि रार १, ९.
 पण्णवति-तत्त्व - -रवानि पत्र २.
 पण्णवति-तत्त्व-ज्ञ - -ज्ञा: वरा
 १, १७.
 पण्णवतितत्त्व-तन्तु-
 पण्णवतितत्त्वतन्तु-वत्
 पाशु १, १४.
 पण्णवत्य(ति-अ)ङ्गुला(ल-आ)
 रमक - -कम् शां १, ४; जाद ४,
 १; वरा ५, १९.
 पण्णवत्य(ति-अ)ङ्गुला(ल-आ)
 यत - -तम् त्रिमा २, ५४.
 २पण्णवति - -तीनि वरा १, १ⁱ.
 पण्-मास - -मम् योदि १, १०९;
 बो २, ३१^j; ४१^k; -सात् जाद ६,
 १०; यो २, ३१^l; सार ३, ८^m; सू
 ११; -सेन सू १३.
 पाण्मासिक - -कम् व ४३३:

१९.
 पण्मास-कृत - -तानि गार ४०८:
 १४.
 पण्मास-मात्र - -श्रेण यो २, ३३ⁿ.
 पण्मास-वत्पर - -रम् ते ६,
 १०९^o.
 पण्मासा(स-अ)भ्यन्तर - -रेण व
 ४६५: १५.
 पण्मासा(स-अ)भ्यास - -सात्
 शां १, ७, ४७.
 पण्मासा(स-अ)र्ध - -र्धात् १योत
 १२५.
 पण्मासा(स-अ)वधि - -धि:
 त्रिमा २, १२४.
 पण्-मुख - -ख: मना १, ६९^p; २,
 १९^q; व ४६३: १९^r; -खस्य शि
 ६, २३०.
 पण्मुखी - -खी त्रिमा १, ७१.
 पण्मुखी/कृ
 पण्मुखी-करण - -णेन सं २,
 २, २; योशि २, १३.
 पटि - -ष्टिम् १संन्या २, ७^s; -ष्टी:
 गर्भ ५^t.
 पटि-तन्त्र^u - -न्त्रस्य सांका ७२.
 पटि-सहस्र - -साग्नि अशि ७,
 ५; महा ६, ८३; च २१: ११;
 सू ८.
 पटिसहस्र-लक्ष - -क्षाग्नि
 गार ४०८: १६.
 पटि-सिद्धी(द्धि-ई)श्वर - -र:
 कामे १८.
 पटप(ष्टि-अ)र-चक्र - -कम् त्रिवि
 ७, ११.
 पट - -ष्ट: हं १६; दु ९^v; सूता २,
 १८; मापू १, ६; ५, ७; -ष्टम् वृषू
 २, ६; त्रिमा २, ५९; त्रि ९; दे

१३; यो १, ६०; दत्ता १, ३; ६;
 योरा १३; ऊ ६४: ७; नापू ६,
 ३; वृषू ८४: ४; ८; ८५: ७; सार
 २८४: ३; २शिसं ७; गार ४०७:
 ६; ११; वपू १, ६; २, २; -ष्टस्य
 वृषू ८४: १७; २०; ८५: ४; -ष्टे हं
 १९; गर्भ ३; अना ३०; अक्ष
 ५; त्रिमा १, ६५; निरु १, १३; म
 ४९: १४; सूता ५, ९; राधा २,
 ५; -ष्टेन पिं १२; वपू २, २.
 पट्टी^w - -ष्टी नाद १०; नाप
 ८, १; महा ५, २५; ३३; अक्ष ५,
 ८४; ८०; त्रिमा ३, ९; वरा ४,
 १^x; २; ९; सार २६६: १८; गार
 ४०६: ८; गु ४; हंयो १८; -ष्टीम्
 वृषू ३, ४; अक्षि ३७; गोत २६;
 गुयो ४२१: ३; हंयो १५; वपू २,
 २; -ष्ट्याम् नाद १५; अक्षि ४०.
 पट्टी-कला -
 पट्टीकला-वत् - -वान्
 यो १९.
 पट्टी-व्यपदेश - -सात्
 सांस् ६, ३.
 ?पट्टी(ष्टी-ई)ता-नाया-
 (य-आत्मक>)मिका - -काम्
 विद्या २.
 पट्टप(ष्टी-अ)न्त - -न्तम्
 रार ३, १; रापू ४, ४१.
 पट्ट-क - -कम् यो ३, १०.
 पट्ट-कूटा(ट-अ)क्षर - -र: विद्या
 १.
 पट्ट-भूमि - -भ्याम् वरा ४, १.
 पट्ट-श्रेणि - -श्रेण्यम् सार २७०:
 ११.
 पट्टा(ष्ट-अ)क्षर - -र: राट १, २;
 ता २, १.

a) ट. गपू. पृ २०३। b) ट. गपू. पृ २०४a। c) ट. गपू. पृ २०४b। d) कम् इति चू १३।
 e) णः इति निसा.। f) णः इति मन्त्रि १४। g) 'धगा' इति शब्धा.। h) तस। i) पा.। j) पां इति
 शब्धा.। k) 'धण्मासात्' इति शब्धा., पां इति शब्धा. संदि.। l) तैष्वा १०, १, ६। m) तैष्वा १०, १, १६।
 n) ष्टिः इति श्रान.। o) ट. गपू. पृ ४७३। p) वरा. २.।

पष्ठा(ष्ठ-अ)ह-

पष्ठाहिक-कम् व ४३३:
१८.

पोडशाब्- -वा प्र ६,२,५; गर्भ ३;
५; वृजा ३, २५; ४,२६; २२;
दृप् ५,८; नाप ४,३८; त्रिना २,
१; रार ३,१; राप् १,८; शारी
६; भा ११; इ १३; १; तु ११^१;
नि ६२,१; -वा-श वृजा ७,८; म
२,२; रुजा १,१६; -वाभिः यो
१,६५; जाद ६,३; ७; योरा १७;
-वासु वृप् ५,८; -वानाम् छां ६,
७,३; ६.

पोडशा- -वाः शां १, ७, १३;
-वाम् छां ३, १६, ७^१; योचू १०३;
दत्ता १, ६; गार ४०७; ८; १३;
-शो अच् ५.

पोडशी- -वाी वृ १, ५,
१४; १५; मवि ७३; नाप ८, १;
व १८; विद्या १; -वाीम् वृप् २,
१०१^०; पै ४, १५; योधि ६, ४१;
४३; ४६; त्रि १०१^१; वड १, २८;
-दया वृ १, ५, १४.

पोडशा-तस(>)मृत्ता २, १८.

पोडशा-क- -कः सांका ३; २२;
-कम् कलि २; -कस्य कलि ३१^०;
-कात्. सांका २२.

पोडशा-कर्मि(क)>का- -का वप्
२, ४.

पोडशा-क(ला)>ल- -लः छां
६, ७, १; वृ १, ५, १४; १५; वृप्
५, ५; वप् ३, १; -लम् प्र ६, १.

पोडशा-कला-

पोडशाकला(ला-आ)वृत्-
-वस्य कलि २.

पोडशा-घतुपटि-श्रात्रिनाम्-
संख्या- -खयवा मे १, १, ६.

१पोडशा-दल^१- -लेपु रार ३, १.

२पोडशा-दल^१- -लम् रार ३, १;
राप् ४, ४८; नाप् ६, ३; -लः
नाप् ६, १०; -ले राधा १, २१.

पोडशादल-कमलो(ल-उ)-
परी पी ४२१: ६.

पोडशादल-पद्य- -अम् त्रिवि
७, ३६; सौ ३, १.

पोडशादल-मध्य- -प्ये राधा
१, १६.

१पोडशा-पत्र^१-

पोडशापत्र-संघृत- -नाम्
त्रिता २, ४६.

२पोडशा-पत्र^१- -अम् वृप् ५, ५;
वप् ३, १.

पोडशा-भेद- -दाः आश्र १.

पोडशा-मात्रा- -त्रया १ योत ४१;

त्रिना २, ५६; -त्राः तु ११; १२;
-त्राभिः शां १, ६.

पोडशामात्रा(मा-आ)मक-

-कः नाप ८, १; पप ४१९; २१;
तु ११; -कम् तु ७.

पोडशामात्रा(मक-त्व)-
-त्वम् नाप ८, १.

पोडशामात्रा(त्रा-अ)न्यित-
-तः तु ६.

पोडशामात्रा(त्रा-आ)रूढ-

-दाः पप ४१९; २८.

पोडशा-वर्षे-

पोडशावर्षि(क)>की-

-कीम् नाप ३, ६४.

पोडशा-संख्या(क)>का-

-कानाम् सु १, २, ४.

१पोडशा-समा^१-

२पोडशास(म)>मा-

पोडशासमा-समा-

(म-आ)कर(>)रा- -राप् सुसु

२.

पोडशा-सहस्र-जप- -यः सौ १,
२.

पोडशा-स्थान^१- -नम् वृजा ४,
२४; -ने वृजा ४, १७.

पोडशास्थानं-क- -के वृजा
४, १२.

पोडशा-स्वर-भेद- -वेन कालि
४०१: ११.

पोडशाहलद्वयस्वरविन्दुमेलन-
रूपा- -वा तारा ८३: ४.

पोडशा(श-अ)क्षर- -राः रार २,
६०; -रम् दत्ता १, ६.

पोडशाक्षरी- -री नाप्
३, १०; -रीम् विद्या ४.

पोडशाक्षर-मन्त्र- -न्त्रः
दत्ता १, ६^१.

पोडशा(श-अ)ङ्गुल- -लम् शि
३, ६; ९.

पोडशा(श-आ)दि- -दिपु सांघ
५, ८६.

पोडशा(श-आ)धार- -रम् योच्
३.

१पोडशा(रा-अ)न्त- -न्ते वृत्
३, ६.

पोडशान्त-स्थ-तुरीय-
वैतन्य- -ज्यम् अता. १३.

पोडशान्त-स्थित-शाना-
(न-आ)मृत्- -रमानम् त्रिवि
५, १२.

२पोडशा(श-अ)न्त^१- -न्तम् वे
१, ४; नाप ९, ३.

पोडशा(श-अ)ङ्गक- -कम् सुसु
७; -के सुसु ११.

पोडशा(श-अ)रं- -रम् वृप् ५,
५; योच् ५; -रे वप् २, ४.

a) वैप १ वद. । b) वृ. गप्. पृष्ठ ७३क । c) शो इति मा ८, १६ । d) वृ. गप्. पृष्ठ ५४ध । e) शीक^०

इति निसा., अज्या. वशि. शोचः द. (वृ. अज्या. संदि., नाप्. स्थ.) । f) द्विसा. । g) वस. । h) उप. = १वर्ष- ।
i) पा. : शत्रुवलय इति शोचः द. । j) ०न्ने इति निसा. ।

पोढशा(श-अ)त्तक-कम् योशि
१, १०४^४; ५, १०^४.
पोढशिनृ- -शिनो मैत्रि ६,
३६; वृत् ५, १७; -त्री मना १,
१०^४.
पोढशीय^१- -येन वल ५, १४.
पोढशो(श-उ)पचार- -रैः त्रिवि
७, ४९.
पेपिस्व^१ व ४२७ : १८.
पेरुपु^१ व ४२७ : १८.
√पूङ् त्रिता १, १९.
पो(ढ>)ढा^१- -ढापो ६; -ढाम्कामे
१३; पो ३; ४.
पोढान्यास- -सस्य हंपो २.
पोढान्यासा(स-अ)धिकारिन्-
-त्री पारा १६.
पोढान्यासिन्- -स्त्री पो ४.
पोढा-रूप- -पः गुपो ४२० : ४.
पुच्छिउ^१ व ४२७ : १८.

स

१स- तद्- द.
२स^१ व ४२९ : ७.
स-कार- -रः योचू ८२; ८३; सी
४; -रम् त्रिवि १६; -रेण ध्या
६१; योचू ३१; योशि १, १३०;
१३३; ६, ५३.
सा(स-अ)दि-विद्या- -द्या ४७.
सं^१ यो ३, १^१; सार २, ९^१; अहा २,
९^१; भाप ३९६ : ३; व ४२८ :
८; हंपो १२; सं-सं^१ सार २६० :

२१.
सं-कार- -०२ अत् ५.
सः^१ शु २, ५; नापू ५, ११; वष ५६:
२२.
सोहम्^१ हं १०; शु १, १८; २,
५; नाप ६, १; त्रिवि ७, ४५; मवा
६; सूता ६, ३; हंपो २१; सोहम्-
सोहम् योशि १, १३२.
सोहं-हंस- -साय व ४६३:
१७.
३स^१ व ५, ५, १.
४स^१- -सम् सार २, ६९.
५स^१ २समान- द.
६स^१ २सह द.
७स^१-
स-रि-ग-म-प-घ-नि-स-सं(ता>)-
ज्ञ- -ज्ञैः नाप १^१.
सं-ऋचू- -ऋचा सार १, २.
सं^१ यत्(यतने), संयतिरे छां १, २, १.
सं-यत्त- -ताः २ प्र ३३ : २३; शौ
५१ : १.

सं-यत्- -समि द.
सं^१ यम्(यतने), संयमेत् त्रिमा २,
१४७.
संयम्यते निह १, ८.
सं-यत्- -तः कुं ७; -तौ योशि १,
७१.
संयते(त-ह)न्द्रिय- -यः नाप ५,
२५; गी ४, ३९.
सं-यम- -मः भव ५, ८; योसू ३, ४;
-मात् शां १, ७, ५२^१; योसू ३,
२७; ५३.

संयमा(म-अ)मि- -मिषु गी ४,
२६.
संयमा(म-अ)संयम- -माभ्याम्
महा ४, ८७.
संयमिन्- -मी नाद ४०; यो १,
५७; या २, २२; गी २, ६९.
सं-यमत्- -मताम् गी १०, २९^१.
सं-यमन- -ने व्रसू ३, १, १३.
सं-यम्व त्रिवि ५, १२; कुं १४; १८;
यो १, २६; ३२; गी २, ६१; ३,
६; ६, १४; ८, १२.
सं^१ या, संयाति इ १८ : १३; भव २,
३८; गी २, २२; १५, ८.
सं^१ यु(मिध्रयो)
सं-युत्, ता- -तः रापू ४, ३४; ३५;
-तम् सार ३, १९; सार २२५ :
९; शि ६, १०८; द्या ९; -ता
रापू ४, ५८; -ताः रुजा १, ११;
-तानाम् इ १८ : १०; -तैः शि ६,
१०८.

सं^१ युज्, > योमि, संयुनक्तु धे ३,
४^१; ४, १; १२^१; मना २, १२,
३^१; गु ५६; संयुजाताम् सार
२८९ : १२.
संयुयुजे इ १० : ४.
संयुज्यते प्र १, १३^१; वृपू २, ४;
सुवा ४^१; सार २८० : १०; सं-
युज्यन्ते सार २९० : ४.
संयोजयति सार २३९ : ११.
सं-युक्त, क्त- -क्तः गर्भे ३; शां १,
३, १२; सार २, ७७; ७९; ८०;
८८^१; शारी ५; योमि १, ८९;

a) °पाथ^१ इति अन्व. । b) विप. नाप. च वैप १ यद. । c) तेषां १०, १, १० । d) °स्वपिपि इत्यस्य
गुण्यजपार्थो विपर्यायः । e) °पुरयो->°पि इत्यस्य गुण्यजपार्थो विपर्यायः । f) स्यु? =देवीविशेष- ।
g) °डलिह इत्यस्य गुण्यजपार्थो विपर्यायः । h) =वर्ग- वा बीजमन्त्रविशेष- या । i) =बीजमन्त्रविशेष- ।
j) अर्थः १ । k) दृ. गृ. वृ २३३८ । l) बीजमन्त्रविशेषो वा 'हंसः' इत्यस्याऽऽन्तिमाक्षरं वा । m) 'हंसः' इत्यस्य
गुण्यजपार्थो विपर्यायः । n) 'मायम्' इत्यस्याऽऽधोराः । o) 'सकल-' इत्यस्याऽऽधोराः । p) २समान- इत्यस्याऽऽदेशः
[पा ६, ३, ८४८व. (दु. ग-दृश- प्रत्य. वस्था.)] । q) २सह इत्यस्याऽऽदेशः [पा ६, ३, ७८८व. (तु. स-ऋच्- प्रत्य. वस्था.)] ।
r) =मंपीतरवराऽऽप्यक्षर- । s) °निर्मैः इति अन्व. । t) =९स । u) 'संयुज्यताम्' इति RAJ. (DH. ३३५) । v) तेषां १०, १०, १ । w) °क्ता इति अन्व. ।

अक्ष ५, १००; दे १३१; १४;
जाद ६, १७; -कम् खे १, ८; ध्या
९०; नाप ६, ७; योक् ६४; १आ
२४; लि ३११; ९; भव २, ५;
-का: भा ५; सार २४२: ८;
-काम्याम् सार २५१: ११;
-काम् शि ६, १६१.

संयुक्त-चे(श्टा)ष्ट-ष्ट: खे २,
९; भव ३, २६.

संयुज्यमान-न: सार २९०: ८.

संयोक्ष्यमाण,णा-णा सार २४०:

१३; १४; २५७: २; २६७: १९;
२८७: ८; २८९: १; -णा: सार
२४६: १८; २७९: ४; २८०: २;
५; -णानि सार २६२: १७.

संयोक्ष्यमाण-कामरस-मुख-

संपत्ति-योग्यता-ताम् सार
२२८: ११.

संयोक्ष्यमाण-रति-ती सार
२८९: ५.

संयोक्ष्यमाण-मुख-खम् सार
२२८: ११.

संयोग-ना: खे १, २; नाप ९, १;

त्रिधा २, २५; योशि १, ६९;
१संन्या २, ११; २प्र ३४: ८; पा
४, ६९; भव ३, १२; १३; सांका
२१; योक् २, १७; २३; -गम् इ
१०: ४; भव १, ४; -ना: अक्षि
२३; सात् ५, ८०; -गात् सार
२३९: २१; -नो सांका ६६; -नेन
अक्षि २५.

संयोग-दीक्षा-क्षा निर्वा
२९७: ४.

संयोग-निमित्त-हेतु-तु: खे ६, ५

संयोग-हेतु-तु: खे ५, १२.

संयोगा(ग-अ)भाव-व: योस्
२, २५.

संयोजन-नम् सार ५, १३.

संयोजित(ता)-ता सार २४४:

११.

संयोग्य बुजा ३, २७; वृत् ४, ५;
६, ५; शां १, ७, १७; पै १, २०;
३, १; त्रिता २, ४४; शि ३, ४;
वृत् ६, २२.

संरक्ष्

१सं-रक्षण-णाय पा ३, ३.

२सं-रक्ष(ण)णी-णी योच ६७:
१, २.

सं-रक्ष्य नाप ४, ३८.

संरम्भ, संरभावहै वृ ६, ४,
२०.

सं-रक्ष्य-रुधा: छां १, १२, ४.

सं-रम्भ-

संरम्भ-यजित-त: महा ६, ६८.

संराज, संराजते सार २४५: १२;

२६५: ३; संराजन्ते सार २३३:

१५; २३७: ६; १५; २५८: २१;

२६२: १५; २६६: १५; २८५:

१९.

संराज-

संराज-व-वन्तम् पा ८, ४.

संराजमान, ना-नम् सार २४५:

१७; २७१: ११; -ना सार २७१:

१३; २३; -ना: सार २२२: १२;

२३२: १६; २३७: २; २६६:

१४; २६७: ५; २७१: ३; -नानि

सार २२२: ७; २३३: १४; २४४:

२३; २८८: १; -नी सार २४५:

१; २.

संराजमान-जघनस्थल-

वासि-मोहन-गृह-हम् सार

२४५: ५.

संराजमान-रव-रवम् सार

२४५: १३.

संराजमान-धर्मा(मं-अ)धर्म-
-र्मात् सार २९०: २०.

संराघ्

१सं-राघन-ने व्रस् ३, २, २४.

२सं-राघन(न)णी-नीम् वृ ६,
३, १.

संरुच, संरोचते सार २८५: ७.

संरोचमान-नाव् सार २४५:

१८; -नानि सार २७०: २२.

संरुच, > रोधि

सं-रुच-रुच्य शि ६, २८२.

संरोच्य सौ २, १२.

संलग्

संलग्न-ग्ना: सार २२३: १७;

२६६: १९; -ग्रानि सार २५८:

२०.

संलग्न-रव-रवात् त्रिता ४,

११; १२.

संलग्, संलग्नते यो २, ११.

संलिख्, संलिखेत् राप् ४, ४८.

संली, संलियेत् त्रिता ५, ७.

संलीयते अक्ष ४, ६९.

संलय-याय वृ ४, ३, १९.

संलवच्, समुच्यते अक्ष १, १३.

संवत्सर-र: प्र १, ९; सुं २, १, ६;

वृ १, १, २, ४, ५, १४; १५;

४, ४, १६; ६, २, १०; मैत्रि ६,

१५, ३३; मना १, २५, १४, १५;

२, ७, १५; सार ४०८: ११; -रम्

प्र १, २; छां २, १९, २; ४, १५,

५; ५, १, ८-११; ६, १-३; वृ १,

५, २; ६, १, ८-१२; नाप ६, २६;

छां २४: १७; १८; शि ५, २३;

-रव्य छां ३, १९, १; वृ १, २, ७;

३, ९, ५; कौ १, ६; नाप ६, २८;

-रा: वृ ३, ८, ९; मना २, ८०, १५;

-राणाम् यो २, ३४; -रात् छां ४,

a) युक्ता: इति निशा, अस्या. पा. १ वनि. शोध: द्र. (द्र. °का: इति अस्या. संति.)। b) भावे ह्य्। c) कर्त्तरि ह्य्। d) कर्मणि ह्य्। e) सुल्° इति अस्या. संति.। f) सल्° इति अस्या., सल्यो° इति अस्या. संति.। g) = १ वर्ष-। वे १ यद्। h) तैश्वा १०, १, २। i) श्र १०, १९०, २। j) तैश्वा १०, ६३, १। k) तैश्वा १०, ६४, १।

१४,५; ५,१०,२; मैत्रि ६,१५;
त्रिवा २,१२३; महा १,१; -रे,
-रेण मैत्रि ६,१५.
सांवत्सरिक-कम् वध ३३:२०.
संवत्सर-त्रय-याव त्रिवा २,१०२.
संवत्सर-मात्र-त्रम् सुवा १.
सं/चद्, >वादि, संघदन्ति दत्ता १,
१; संवेदन् रार २,६९; शि ७,८५
संवदिष्टा: कौ ४, २-१७५^b.
संवादिष्टा: कौ ४, २-१७५^b.
सं-वद्मान-ना: पित्र १,२.
सं-वाद-द्-सार २२०:१९; -दम्
त्रिवि ८,२२; २३; गी १८, ७०;
७४; ७६.
सं/चन्
सं-वनम-नम् मैत्रि ६,१३.
सं-चर्ग-सं/वृज्.द्र.
सं/चर्णु>नि, संवर्णयते सार २६९:
२२.
१-२-सं-वर्त-१-२संवर्तक-सं/वृज्.द्र.
सं/चल्
सं-वलित,ता-त्त: सार २९०:
१०; -त्तम् सार २२६: ५; -ता:
सार २३७: १३; २६५: २३;
२६६: १३; -ताम् सार २७५:
१०.
संवलित-नित्या(ख-आ)नन्द-
रूप-भाम्याम् सार २४७: १६.
सं/चस्(निवास), संवसेत् मैत्रि ७,
८; नाप ३,३१; ४,१७.
संवत्स्यथ प्र १,२.
सं/चस्(आच्छादने), >वालि
सं-वसान-ऽन: मना २,२; व
४६१: १९.

सं-वासयत्-यन् पा ८,७.
सं/चस्(वहने)
ऽसम्-ज्व-डम् नाप ३,३; व
४४३: १६; ५४९: २; ४५३: २.
सं/चिद्(आने), >वेदि, संवेत्ति गौ १,
१२; संचिद्रते आर्षे ९: ५;
सं/चिदि कौ १,२.
संवेद्यते महा ४,११०.
सं-चिद्-वित् महा २,४८; अज
४,४३; ५८; ५९; ६९; सु २, २,
४९; योरा १८; -चिद: शां १, ७,
२९१; महा ४, ५९; ५, ९०; अज
४, ४५; ५५; -चिदम् अज ४, १०;
-चिदा तै १, ११, ३.
संचित्त-त्तव-रवे अज ४, ७७.
संचित्त-पद-दम् अज ४, ११.
संचित्त-संरोध-धेन अज ४,
४३.
संचिद्-उत्पत्ति-त्ति: अज ५,
७५; जाद १०, १.
संचिद्-दन्-दशि शां १, ७,
३२.
संचिन्-मय-या: वृ २, १६६.
संचिन्मय-ख-स्वात् वृ २,
१५६.
संचिन्-मात्र-त्रम् महा ६, ८१.
संचिन्मात्र-पर-२: १संन्या
२, ४७-४९.
संचिन्मात्र-स्थित-त्त: स्क
२; ३.
संचिन्ति-त्ति: वृ २, १३; -न्या
महा ५, ८९^b.
१संचिदान-ना: आर्षे ८: १४.

सं-चिदित्त-
संचिदित्त-मनो(नस्-उ)नम्य-
(सी-आ)नुभव-व: मं ३, १, ३.
सं-वेदन-नात् महा ५, ४७.
संवेदन-मय-यम् अज ४, ४२.
सं-वेदित-त्त: प्र ५, ३.
सं-वेद्य-द्यम् १संन्या २, ४८;
-धेन महा २, ४८; अज ४, ५९.
संवेद्य-वर्जित-त्तम् अज ४, ११.
संवेद्य-संपरित्याग-नात् अज
४, ५४.
सं/चिद्(आने), संचिन्ते वृ २, २, ३.
सं-चिदत्-दन् पित्र ६, २०.
२संचिदान, ना-न: वृ २, १०५^b;
-ना वृ २, २, ३.
सं-चि/भज्
संचि-भज्य कुं ३.
सं-चि/भा, संचिभाति कुं ३, १, १०^a.
सं-चि/भू
संचि-भू-भू: मैत्रे १, ४, ११.
सं-चि/राज्, संचिराजते सार २२०:
२; संचिराजन्ते सार २३७: ११.
संचि-राजमान(>)ना-ना: सार
२२३: ६.
सं/चिद्, संचिदति मां १२; छां ५,
२, ८; वृ ६, ३, ६; मैत्रि ६, २८;
वृ २, १०; संचिदन्ति अ २;
भ २, १५; संचिशेव शि ७, १७.
संचिदसा मुं ३, १, ९.
संचिद-द: वृ २, ३, ७.
सं-चेक्ष्यत्-क्ष्यन् कौ २, १०५^b.
सं-ची[वि/द(गती)], सं/चि...षति
मना १, ३५^a.
सं/चु(आच्छादने)
संच्यत्-त्तम् कौ १, १; शि २, ६;

अ) समवादिपि इति आन., °वादिपि इति शाखा ६, १९ । b) पा. १ संवादेऽधि (नेप. > दि) १) छा: इति पदद्वयामरकः शोधः द्र. (वेत्. नि. सा. समवाद् इति) । c) तैश्वा १०, १, १६ । d) नि. सा. ? [वृ. सख् इति अश्या., 'स वसत्' इति शां. (६, १), 'स वसन्' इति आन. (द्र. शं. दी.), सख्यन्मास्य इति Jc.] 'सोऽवसत्' इति शोधः द्र. । e) अ १, २२, १७ । f) °दा इति नि. सा. ? यनि. शोधः द्र. (द्र. अश्या.) । g) सख् इति Jc. । h) °वित् इति अश्या. । i) 'संराणः' इति मा ८, ३६ । j) 'संचिभावयति' इति विद्यु. (IHQ १७, ९०) । k) 'संचेक्ष्यत्->क्ष्यन्' इति नि. सा. ? [वृ. 'संचेक्ष्य' इति अश्या., शां. (४, १०), Jc.] यनि. शोधः द्र. । l) मा ३२, ८ ।

-ने गौ ४, २३.
 संघृत-व्य- -रपेन गौ २, १, ४.
 संघृता(त-आ)स्व- -स्वः जाद
 ५, ५; वरा ५, ३२.
 संघृति- -व्या गौ ४, ५०, ७४.
 सं/घृज्, संघृक्ते छां ४, ३, २, ३;
 संघृक्ते की २, ७; संघृह्य
 की २, ७.
 सं-घर्ग- -गौः छां ४, ३, १; ३; घृ ६,
 ३, ४; की २, ७; -गौ छां ४,
 ३, ४.
 सं/घृत्(°बधा.), संघर्तते छां ६, १३,
 २; समयसंत घृजा १, १५^१; वृष
 १, १, १५^१.
 सं-घर्त-क^१-
 संघर्त-क^१- -कः अ १; घृ
 २, २; घृज ३, ५; काला १.
 सं-घर्त-क^१- -सं: स ३७८: १.
 संघर्त-क^१-
 संघर्तका(क-आ)स्मिन्-श्वेत-
 केतु-जडभरत-दत्तात्रेय-शुक-
 पामदेव-हारीतक-प्रभृति-
 -वयः मि ८.
 संघर्तका(क-आ)स्मिन्-श्वेत-
 केतु-दुर्षात-भ्रशु-निदाघ-जड-
 भरत-दत्तात्रेय-श्वेतक-प्रभृति-
 -वयः जा ६^१; या २, १.
 संघर्तका(क-आ)स्मिन्-श्वेत-
 केतु-दुर्षात-भ्रशु-निदाघ-जड-
 भरत-दत्तात्रेय-श्वेतक-शुकुपट-
 प्रभृति- -वयः घृजा ७, ३.
 सं-घृष- -वः गौ ११, ५१.
 सं/घृष्
 संघृषि-
 संघृष्यु(दि-उ)पेत- -वम् मै ३,
 ४^१; मैत्रि ३, ४; मैत्रि १, ३१^१.
 सं/घृह्, संघृह्य, संघर्ष ३, १, १३.
 सं-घेदयत्- सं/विर् ६.

सं-घेद्-न-, सं-घेदित-, सं-घेघ-
 सं/विद् (शान्ते) ६.
 सं/घेद्
 सं-घेदित, ता- -ताः सार २३३: ३;
 -ते सार २३४: १.
 सं-घेष्टय त्रिवि ७, ४३.
 सं-घ्या(वि-अ)घ/ह
 संघ्यघ-हार- -राय १संन्या २, ८१.
 सं-घ्या(वि-अ)प्
 संघ्या(वि-अ)प्च नृज ३, १०.
 सं/शम्, >शाम्, संशाम्यति छां २,
 १३, १.
 सं-शान्त- -न्तः १संन्या २, ४९;
 अक्ष २, ११.
 संशान्त-शुःख- -सम् भाष २, २४
 संशान्त-सर्वसंघेघ- -वम् महा
 ६, ८१.
 संशान्त-सर्वसंघेघ, ष्या- -व्यः
 महा ६, ८२; -श्या मंत्रे २, ३०;
 महा ५, ६.
 संशान्त-स्वरूप- -पम् अक्ष २,
 ३९.
 संशान्ता(न्त-अ)शोषकित्थिय-
 -वः महा ५, ६०.
 सं/शास्, संशिक्षाधि मना १, १५१^१;
 घ ४६०: १९१^१.
 सं-शित-, सं-शिक्षान- सं/शो ६.
 सं/शी, संशयेत् ६ १५: २.
 संशयते त्रिवि ३, २१^१.
 सं-शय- -यः गौ १, १७; २४; ३,
 ३०^१; ४, ६२^१; मैत्रि २, १२; ३,
 २४; अना २९; ३०; सता २, ४;
 ५, १०; १३; १४; ४३-४५;
 ५३^१; ५९; नाद ५०; ५२; ष्या
 ७०; मत्रि ३२; १पोत ७८; १२२;
 नाप ३, ५८; ६३; ७६; ६, २०;

त्रिवा २, १४५; स्फ ५; सार ५,
 १६; १७; सार ४, २; राज ३, १;
 वा २६; शां ३, ७, ४; महा ४,
 ७१; ६, ४०; योशि १, १०५;
 १०९; १५१; ५, ३५; ६२;
 १संन्या २, ९६; अक्ष ५, ६५; कक्ष
 २८; रक्ष ३९; यो २, २४; ३६;
 रुजा २, १२; जाद ४, ३२; ६,
 ३०; २, ६; पं २४; वरा १, १७;
 २, ३६; ५, ५९; शा ९; सर ३,
 ३३; सु १, १, ४३; ५०; २, २,
 ३४; योरा ११; नाव ३, १०; वि
 ३२; शि १, ९; ४, ५६; ६, १८८;
 २८०; ७, ४०; हे २; व ४६५;
 १३; वज १, २२; ४, ४५; गी ८,
 ५; १०, ७; १२, ८; -व्यम् शां ३,
 १; सार २४०: १७; गी ४, ४२;
 ६, ३९; -वस्य गौ ६, ३९; -चे ते
 ६, १०१.
 संशय-विपरीत-मिष्या-ज्ञान-
 -नानाम् पदं २.
 संशया(य-आ)श्रय- -व्यम् यो १,
 ५९.
 संशया(य-आ)श्रमन्- -मना,
 -श्मा गी ४, ४०.
 संशया(य-आ)पक्ष- -वः १अव
 १६.
 संशया(य-आ)विष्ट-वेष्ट-
 -तसाम् मैत्रे २, १६.
 सं-शोचि- -ति: मैत्रे १, ४, ११.
 सं/शुच्(शोके)
 सं-शोक-
 संशोक-ज^१- -अस्य मत् ३, १,
 २१.
 सं/शुध्, >शोधि
 सं-शुध-
 संशुध-कित्थिय- -वः गौ ६, ४५.

अ) श्र १०, १२९, ४। b) भा. अर्थः १ = अश्रितिशेष-। c) भा. अर्थः १ = अश्रितिशेष-। d) शिकं इति ध्यात्.
 संटि.। e) संविद्दे० इति पा. १ यनि. शोषः द. (तु. मैत्रि ३, ४)। f) तैश्वा १०, १, १५। g) श्र १०, ८४, ४।
 h) °दायते इति अन्वा. १ यनि. शोषः द. (तु. अन्वा. संटि.; वैटु. निशा. °यते इति)। i) °मवः इति ध्यात्।

सं-शोध् वृजा ३, १०; भ १, ५; शि २, २३.

सं/शुभ्, संशोभते सार २४४: १२; संशोभन्ते सार २६३: १३.

सं-शोभमान- -ना: सार २७०: ५;

-नानि सार २२४: २०.

सं-शोभा-

√संशोभाय्

संशोभायमान- -न: सार

२४५: १४.

सं/शो>शा

सं-शित*

संशित-न्नव- -ता: गी ४, २८.

सं-शिरान- -ना: व ४६०: १४^५;

सं/श्रि, संश्रयामि महा ३, २२; ६, २४; संश्रयेत् महा ४, २; ऊँ १८: १९.

सं-श्रय- -यम् शि ६, २७३.

सं-श्रित- -तम् मना १, १४^५; -ता: गी १६, १८.

सं/श्रु, >श्र, श्रावि, संश्रुणोति ते ५, ८५; संश्रुण्यात् सार २४४: ९.

सं-श्रावयितृ- -तृ कौ २, १^१.

संश्रावयितृ-मत्- -मात् कौ २, १

सं/श्रिष्

सं-श्रिष् भ २, २९.

सं/सञ्ज्

सं-सक्त-

संसक्ति-निमुक्त- -क्त: अक्ष १, ५७.

सं-सर्ग- सं/सृज् द.

सं/सह, ५^५सं...सह वृ ६, ४, १९.

सं/सिच्>स्य्, सं...सिद्यामि वृजा

३, ५; सं...सिद्यन्तु नाप ४, ३८;

सं...सिद्यन्तु नाप ४, ३८.

सं/सिप्, संसिप्यति अक्ष ५, ५२.

सं-सिद्ध, द्वा- -द्वा: सार २३८: १५^१;

२६२: ६; २८०: १७; २८४:

१७; २९१: १०; -द्वा सार

२२२: १; २; २६०: १३; -द्वा:

सार २३८: १३; १६; २४०: २२;

२४१: ३; २५०: २२; २५३:

१३; १५; २५४: २२; २६२:

१९; २७२: १७; २७४: १३;

२७५: ९; २८०: १६; २०;

२८१: ५; २८२: १५; २८९:

१४; -द्धानाम् सार २४०: २३;

-द्धानि सार २६६: ३; २८८: १;

-द्धानो सार २५१: १; -द्दे अक्ष

५, ५२.

संसिद्ध-निकुल-लीला-

-ल्लायाम् सार २५१: ८.

संसिद्ध-प्रकटा(ट-अ)नुभाव-

-व: सार २६२: ६.

संसिद्ध-लीला- -ल्लाम् सार

२६२: ४.

सं-सिद्धि- -द्धि: यो २, ४८; -द्धिम्

१योत १२२; योशि १, १०५;

कृ २१^१; गी ३, २०; ८, १५;

१८, ४५; -द्धौ गी ६, ४३.

सांसिद्धिक- -कम् सांस् ३, २०;

-का: सांका ४३.

सांसिद्धिकी- -की गी ४, ९.

सं/सिष्य

सं-सीष्य अशि ६, ६१५^१.

सं/सृ, >सारि, संसरति मैत्रि ६,

३०; गोप् २; ३; सांका ४०;

६२; संसरामि १भव ११; सं-

सरन्तु १भव ११.

सं-सरण- -णम् १भव १; ६.

सं-सार- -र: गी ४, ५६; मै ४,

४, ३; मैत्रे १, ४, ५; ते ५, ९८;

१योत १६; शां १, ७, २५; महा

४, ६६; ६८; ७३; ६, ९; २६;

योशि १, ५१; ६, ५८; १आ १^१;

वरा २, ५४; ३, २०; २१; शा ३;

सांका ४५; -रम् क १, ३, ७;

गी ४, ५६; मैत्रि ६, ३४; वृजा

८, ३; वृप् २, १^१; ३, २, ५, १३;

लु २२; नाप ३, १४; राव १,

२; महा ४, ८७; ५, १३३; जाद

२, ४; वरा २, ६४; विद्या १; वव

५, ४७; भव १, १; -रस्य गी ४,

३०; १आ ४; ५; जाद १, १८;

सर ३, १९; -रात् वृजा ५, ९,

७, ७; वृप् १, ११; २, १^१; नाप

६, २०; जाद ६, ४७; गीव १८;

तुल ७०: १४; शि ४, ३१; ६,

१८०; सिशि ३८०: ६; -रे मै

१, ७^१; मैत्रि १, ४^१; मैत्रे १, २^१;

त्रिवि ५, ४; महा ३, ८; ३७; ६,

६३; ६५; अध्या ३७; कव १०;

सार २३५: १; २९१: ९; सिशि

३८०: १२; -नेप् गी १६, १९.

सांसारिक- -क: अक्ष २,

२४; -कम् १भव २८.

संसार-चक्र- -क्रेण १योत १३३;

२योत १, ५.

संसार-जलधि- -धिम् भव १,

५०.

संसार-ज्ञाना(न-अ)तीत- -णम्

प्रा १, १^१.

संसार-तरणो(ण-उ)पाय- -य:

त्रिवि ५, ५.

संसार-तारक- -क: भव २, ११;

-कम् नाप ७; ८, १.

संसार-ता(ति)रण- -णाय मं

२, ४, ४.

४) पा ७, ४, ४१ । ५) श्र १०, ८४, १ । ०) तैष्या १०, १, १४ (वि.तु. 'संश्रुतम्' इति J.C., 'संश्रुतम्' इति नादी. संटि.) । d) वैद. 'सुं...राज' इति श्र. (१०, ८५, २२) पाठे. च मन्त्रस्वरूपे भेदथ । ०) *दम् इति अस्या. संटि. । १) *से* इति निता. यनि. शोध: द. (उ. शी १०, २, २६; आन.) । 'संशरीयः' इति अस्या. । ६) *संस्कारः' इति आन. । ५) *नम्, कधीतम् इति आन. । १) पा. यनि. शोध: द. ।

संसार-दुःख-स्नानि परा ३, ३.
 संसारदुःखा(स-अ)कं-ताप-
 तापित-चेतस-तसाम् भव
 १, २०.
 संसारदुःखा(स-आ)वह-
 -हैः सार २, ३८.
 संसार-दुस्त-तरु-रोः महा ५,
 १३.
 संसार-दृष्टि-दृष्टयः ते ६, ५८.
 संसार-दोष-दृष्टि-प्लव्या नाप
 ६, २०.
 संसार-नाशन-नम् जाद ९, १.
 संसार-निवृत्ति-त्तिः मं १, २, ५.
 संसारनिवृत्ति-मार्ग-
 प्रवृत्ति-त्तिः त्रिवि ५, ४.
 संसार-निवृत्ति-त्तिः जाद ६,
 ३८.
 संसार-पादप-पः सु २, २, ३८.
 संसार-पार-रम् हे ७.
 संसार-प्रलयो(य-उ)दय-चौ
 अक्ष ५, ४०.
 संसार-बन्धन-नम् मं २, ४,
 ३; नात् त्रिता ४, ११; म २,
 २०; २३.
 संसार-भावना-ना योशि १,
 २३; नाम् महा ४, १३०.
 संसार-शृणु-गुपु महा ४, ११३
 संसार-भ्रम-
 संसारभ्रम-ता-ताम् योशि
 १, २०.
 संसारभ्रम-वर्जित-तः
 योशि १, १८.
 संसार-भ्रमण-णम् योशि ६,
 १९.
 संसार-मण्डल-लम् इ ११ :
 १९; ले योशि ५, ६१.
 संसार-मल-लम् महा ४, २१.
 संसार-मुक्त्वा(क्ति-अ)ध-धम्
 महा ४, ४.

संसार-मोक्ष-स्थिति-बन्ध-
 -हेतु-नुः वेद, १६; भव २, ४७.
 संसार-मोचक-कः पं ३६.
 संसार-मोचन-नम् अता १९.
 संसार-मोह-मिहिक(>)का-
 -काः महा ५, ५३.
 संसार-राशि-दुःस्वप्न-मे महा
 ६, २२.
 संसार-रोग-हर-रम् योशि १,
 १०.
 संसार-वर्मन्-र्मनि महा ५,
 ६४.
 संसार-वारि-प्रसृत-तम् महा
 ६, ३१.
 संसार-वार्धि-धिम् मं १, २, ३.
 संसार-वासना-ना सु २, २,
 १४.
 संसारवासना-जाल-ले
 महा ५, ६५.
 संसार-विनाश-शाः रुद्र ३५.
 संसार-विमुक्ति-क्तिः प्रा १, १.
 संसार-विमोचन-नः इ १६.
 संसार-वृक्ष-क्षस्य सु २, २,
 ३७.
 संसार-वृत्ति-त्तिषु शां १, ७,
 २७; अक्ष १, ४२.
 संसार-व्यपदेश-शास्त्र ४,
 २, ८.
 संसार-संकट-टे महा ५, १४३.
 संसार-संतति-तिः भव १, २५.
 संसार-सागर-रे गोपू ४४.
 संसारसागरो(र-उ)त्तार-
 कारण-णम् त्रिप्रा २, १३४.
 संसार-गुण-संपद्-पदः पित्र
 ५, १.
 संसारा(र-आ)ख्य-ह्यः यो ३,
 २८.
 संसारा(र-आ)द्वय-रम् महा
 २, १५; ३०; ५, १६६; -रस्य

अक्ष ४, २३.
 संसारा(र-अ)तिरिक्त-कः सार
 २७९; ३१.
 संसारा(र-आ)रम्क-कः सार
 २९० : ३.
 संसारा(र-अ)म्युनिधि-धौ
 महा ५, १७६.
 संसारा(र-अ)णव-तारि(यु>)-
 णी-णीम् दे १९.
 संसारा(र-अ)णव-नाशन-
 -नम् के २, ५.
 संसारा(र-अ)णव-पातिवृ-
 -तिनाम् महा ४, १०६.
 संसारा(र-अ)णव-संजात-तम्
 गो ५१.
 संसारा(र-आ)ति-निवृत्त-
 (त्ति-अ)न्वेषण-णः नाप २.
 संसारा(र-आ)सक्ति-रहित-
 -ताः सार २८३ : ९.
 संसारो(र-उ)च्छेदन-नम्
 योशि १, ७१.
 संसारो(र-उ)त्तारण-णम्
 अक्ष ९.
 संसारो(र-उ)त्पत्ति-प्रयोजक-
 -काः सार २९२ : ७.
 संसारिवृ-रि अक्ष १, ५६;
 -रिणः राज ३, १; सार ५, १७;
 दत्ता १, १; विद्या ४^१; वड १, २२;
 -रिणाम् मुद्र २; योशि १, २२; -री
 तेंद, ३२; जाद १०, ६; जावा ८.
 संसारित-तः सार २९२ : ९.
 सं-सृति-त्तिः ते ६, ७७; अक्ष ५,
 ७६; ११८; अध्या ४८; जाद १०,
 ३; साम् ३, ३; १६; -त्तिम् त्रिप्रा
 २, १६२; गोपू ४६; -तेः महा ५,
 १७०; योशि ६, १; अक्ष ५, ४१;
 गोपू १०; -तौ तिथि ३८१ : ४.
 संसृति(क>)की-कीम् भ
 २, ८.

संस्मृति-पाश- -नात् भ २, १४;
२०.

संस्मृति-बन्ध-मोक्ष- -क्षयोः
मवा ३.

संस्मृति-विभ्रम- -मम् महा ६,
२२.

संस्मृति-व्रतति- -त्तेः अथ ४,
३९.

संस्मृति-मुख- -खम् कुं ७^०.

सं/सृज्, संसृजति अशि ४, १६^०;
२३; ५, ८^०; वट्ट ३१६: ८;
१६.

संसृज्यते छां १, १, ६; वृ ४, ३,
८; संसृज्यते नाप ५, १९.

सं-सर्ग- -र्गः भव ३, २२; वपू २,
२; -र्गात् सार २९२: ४; -र्गात्
अना ८.

सं-सृञ्- -सृजि व ४६१: २५^०.

सं-सृज्यथे ३, २; अशि ५, ४, काला
८; जाया १६; वट्ट ३१७: ४.

सं-सृष्ट- -ष्टम् अ १; व ४५९: १७;
४६१: ३५^०; ४६४: २०५^०; भव
२, ५९.

सं/सेषु, संसेवन्ते सार २२४: १७.

संसेव्यन्ते सार २२६: २.

सं-सेवमान, ना- -नः सार २२५:
२२; २६९: १३; -नाः सार
२२९: १४; २३४: १४.

सं-सेव्य- -व्यम् नाप ४, २५.

सं-सृ/कृ, संसृकरोति छां ४, १६,
२; ३; कौ २, ६; संसृकरोति छा
४, १६, ४; ८, ८, ५.

संसृकरोति सांस् १, ३३^०.

सं-संकार- -रः २संन्या १५: १^०;
२भा ३^०; सांस् ५, १२०; योस्

१, ५०; -रात् योस् ३, १०; -रंभ्यः
योस् ४, २६.

संस्कार-परामर्श- -शात् व्रस्
१, ३, ३६.

संस्कार-भेद- -दाः सांस् ५,
१२०.

संस्कार-लेख-

संस्कारलेख-तस(>) सांस्
३, ८३.

संस्कार-वश- -नात् सांका ६७.

संस्कार-शेष- -पः योस् १, १८.

संस्कार-सहित- -तम् वृजा
३, १^०.

संस्कार-साक्षात्करण- -णात्
योस् ३, १८.

सं-स्कृत, ता- -तम् वृजा ३, ३४^०;
भव ४, १४; -ताम् सुमु ९.

संस्कृता(त-श्र)ञ्- -ञम् सुमु ८.

सं-स्कृत्य वृ ६, ३, १; स ३७९: २.

सं/स्तम्भ

सं-स्तम्भ वृ ४, ५; गी ३, ४३.

सं/स्तु, संस्तुयते योच् १०७.

सं-स्ताव^१- -वः वृ ४, २, ३.

सं-स्तुत- -तः वपू १, ५.

सं-स्तुयमान- -नम् रार २, ४६.

सं/स्तु>स्तिर

सं-स्तौर्य कौ २, १५.

सं/स्था, >तिव्, स्थापि, संतिष्ठस्व

मना २, ७७^०; संतिष्ठत् क ५;

ति ३१०: १०; शि ७, १४; ५७;

कथु ३, ५.

संस्थापयेत् भ १, ४; शि २, २६.

सं-स्थ- -स्थः आगे ३^०.

सं-स्था- -स्थामु वट्ट ६, १०^०.

सं-स्थान- -नम् कौ १, ३; ५.

सं-स्थापक-

संस्थापक-द्वयोपकरण-गुण-
रूपमान-रतिध्यानकीर्तन-
लीलास्मरण-तद्भावापत्ति-
रूप-सेवा- -वा सार २४९:
११.

सं-स्थाप्य लु १४; शां १, ३, ५; १,
४; ७, ४३; शि ६, १४१; ७, ७६.

सं-स्थित, ता- -तः नाद १९^०; ध्या
९८^०; व्रवि ६९; ७१; ७२; द
१८; शां १, ३, ४; ११; गोड २८;

कृ १८; जाद ३, ११; पं १६;
-तम् गौ १, २८; अ ३, १३; तै
१, १; नाप ५, १; योशि १, ५९;

अत्र ५, ८७; गोड ४६; ५५^०; शि
२, ८; -तस्य इ १८: ९; -ता शां
१, ७, ४२; यो १, ६८; जाद ४,
१८; १९; -ताः त्रिमा २, ३१^०; ८२;

योच् २१; जाद ४, ३०; वरा ५,
२८; -तानि क १; -ते पै ४, ९;

महा ४, १३; अथ ५, २२.

सं-स्थिति- -तिः मैत्रि ५, १^०; ६,
३६; त्रिमा २, १६१.

सं/स्ना>घ्रापि

सं-घ्राप्य अक्ष ४.

सं/स्पशु

सं-स्पष्ट- -ष्टः कौ ४, १५^०.

सं/स्पृशु, संस्पृशति गी ४, २६; २७;
संस्पृशन्ति कुं २३; संस्पृशोव
अशि ५, २२; वट्ट ३१७: १३.

सं-स्पृश- -शः भ २, ३; अथ ५,
६१; -शौन छां ३, १३, ७.

सं-स्पृश-ज- -जाः गो ५, २२.

सं-स्पृश-कौ २, ४.

सं-स्पृश-कौ २, १५.

a) 'कामान् संन्यमति' इति अश्या. । b) 'सृजति' इति अश्या. । c) 'संसृजति' इत्यपि निता. पागे. ।
d) श्र १०, ८४, ६ । e) श्र १०, ८४, ७ । f) पा., पावा ६, १, १३७ । g) 'वेत इति संदि. । h) 'रोश्रो' इति अश्या.
संदि. । i) 'रारि' इति अश्या. । j) 'कदिरतम्' इति अश्या. । k) तैमा ३, ७, ६, १९^०; २०^० । l) 'स्थितः इति
अश्या. । m) 'सुसिप' इति अश्या. । n) 'वाः इति निता. । o) 'तः इति अश्या. । p) 'तः इति अश्या. इ यनि. शोधः
इ. (द. निता.) । q) 'तिष्ठति' इति मै ४, ४, १३ । r) 'स्पृ' इति अश्या., शांया ६, १ ।

सं-स्फुट- -ष्टः गर्भे धृ°.
 सं/स्फुर, संस्फुरति मैत्रि ६, ३५;
 संस्फुरेव यो १, ६७.
 सं/स्मृ, संस्मरति अक्ष २, २८; सं-
 स्मरन्ति सार २५९:७; संस्मरेव
 विता ५, २०; जाद ६, ३; नापू
 ४, २७; शि ५, ३६; गार ४०८:
 ५; सं...स्मरेव रार ४, १२.
 सं-स्मरव- -रन् राउध, १; जाद ६, ५.
 सं-स्मृत- -त्तः कृ १७^b; -तम् महा
 ५, १३१.
 सं-स्मृत्य जाद ६, ४०; संस्मृत्य-
 संस्मृत्य गी १८, ७६; ७७.
 सं/स्रु, सं...स्रवन्ति मना २, ४०९^०;
 संस्रवेव योशि १, १२७.
 सं-स्रव- -वम् वृ ६, ३, २^०; ३^१.
 सं/हन् (*नधा.), संजघान श ४.
 समहन्वत वृ १, २, २.
 सं-हन्त- -त्ता: शुं २, २, ६.
 साहल्य- -ल्ये सांस् ३, २२;
 ५, १३०^१.
 संहन्त-परार्थत्व- -त्वात् सांस् १,
 १४०.
 सं-हस्य वृ ४, ३, १९.
 संहल्य-कारिन्-
 संहल्यकारिन्व- -त्वात्
 योवृ ४, २३.
 सं-घात- -त्तः गी १३, ६; -नम् ते ६,
 ५६; वा: गो ३, १०; -ते १ संन्या
 २, १०३; -त्तै: गो ३, ३.
 संघात-परार्थत्व- -त्वात् सांस्
 १, ६६^१; सांका १७.
 संघात-योग- -गात् सांस् ३, १३
 सं/ह्रा(गती)
 १सं-जिहान(>)ना- -ना: आर्थे ८:
 २३.

सं/ह्रा(त्यागे)
 २सं-जिहान- -न: छां १, १०, ६; ४,
 १, ५; ५, ११, ५.
 सं-हित- सं/धा द.
 सं/ह्र, >हारि, संहरते वृ ३१७:
 १९; गी २, ५८; संहरति अ ३,
 ११; वृपू ३, २; योशि ५, ५४;
 वपू २, २; संहरेव वृ १, ३;
 योशि १, ४४.
 संजहार श ३.
 संहायंते अशि ६, १३.
 सं-हरण-
 संहरणा(ण-अ)न्तिक- -कम्
 ध्या २३:-
 सं-हरव- -रन् वृ ४, २.
 सं-हर्तुम् अक्ष ३, ३.
 सं-हर्तुं- -त्तां वृ ३, ६३.
 सं-हार- -र: नाप ८, १; वृ ३: -रम्
 वृजा ७, ८; रुजा ३, १; वृ ३,
 ५४; -रे ते ५, ५२.
 संहार-कारक- -क: वृ ३, ३५.
 संहार-काल- -ले वृजा ७, ८;
 रुजा ३, १.
 संहार-तिरोधाना(न-अ)नु-
 संमत- -तम् नापू १, १८.
 संहार-प्रणव- -व: नाप ८, १^१;
 वृ ५.
 संहार-रूप(>)पा- -पा नापू
 २, ८.
 संहारा(र-अ)क्ष- -क्षम् वृजा ७,
 ८; रुजा ३, १.
 संहारा(र-अ)र्थ- -र्थम् कृ १८.
 सं-हृत- -त्तानि योशि १, ४०.
 सं-हृति- -त्तौ शु ७२.
 सं-हृत्य वृ ३, १०^१; ४, १; वृ ३;
 पै २, ४३; ४८; जाद ८, ८५

१७; शि ७, ६७.
 सं-कङ्कोल- -कम् शि ६, ५०.
 सं-कमण्डलु- -लु: नाप ३, ५५.
 सं-कल, सा- -लं रार २, ७५; -ल:
 मैत्रि ६, १५; मैत्रे ३, ३; वृ ३,
 ८; व्रि ३३; ३८^१; ३९; -लम्
 कै १, १४; १९; अ ३, ५; ते ६,
 ४३; नाद ३९; ध्याट: व्रि ३७^१;
 ४०; नाप ३, ८५; मं ५, १, ९;
 श २३; ३०; त्रि २, १६; रार
 २, ६६; शां १, ७, ४७; ३, १^१;
 पै १, ९; महा ४, ६३; ६, ५८;
 योशि १, १९; २०; अक्ष ३, २४;
 ४, ४७; पाशु २, ३८; ४१; पत्र ३,
 ११; यो १, ८०; २, ४९; जाद ६,
 २६; गोपू ५; २५; वरा ३, ५;
 शा १७; सु २, २, ७३; इ २०: २;
 पा १, ७^१; ८, १^१; ४, ७^१; ९; ९;
 ७; शि ६, ३८; २५४; स ३७९:
 १५; भव २, ४२; -लस्य मैत्रि
 ६, १५; पा ८, ३; हे ११; -ला
 महा २, ५३; ५, १०१; २९;
 त्रि ८: -ल्ला: श १५; महा २, ५८;
 भव ४, ३०; र्ह ४०; पा ९, १०;
 भव २, ५०; -ल्ला महा २, ७१;
 -ल्ला महा ५, १६१; त्रिता ३,
 २०^b; क ११; -ल्लानि १आ ९;
 -ल्ला त्रिता १, ७८; -ल्ले कै १,
 १३; ध्या ८; व्रि ३९; जाद ४,
 २७; वरा २, ६२.
 सकल-कला-कोविद- -दाय सार
 २६१: ९.
 सकल-कला-न्यापि(न् >)नी-
 नीम् त्रिता १, ७७.
 सकल-काम-दा(वृ >)प्री- -प्रीम्
 सार २३२: ९.

a) 'संस्फुरय' इति आन., 'संस्फुरयते' इति अश्या. । b) 'संस्मृतः' इति अश्या. । c) 'संस्मृक् यवन्ति'
 इति अश ४, ५८, ६ । d) 'संहृत' इत्यपि पाठे. । e) = ६स । f) 'सकलजनवश्यकर-> -नाय' इत्यस्याऽऽपारात्वात्-
 करणम् । g) सकल °लनिष्क° इति निसा., अश्या. संटि. पा. ३ यनि. शोषः द. (द्व. अश्या.). । h) °ल्लो°
 इति अश्या. संटि. ।

सखिलोक-काम-मः श्रुं ८, २, ५.
 सखि-स्थान-ने सार २४५: १६.
 सखी-भाव-वम् सार २८०: ७;
 -वेन सार २३६: ८.
 सखी-मण्डल-ले सार २३४: १०.
 सखी-यूथ-धात्रि सार २२२: ८.
 सखी-रूप-पम् सार २२३: २२;
 २२४: २; ५; ९; २३; २२९: १;
 २७२: १; १०; १४; २८०: १८;
 -पेण सार २२४: १२.
 सखी-संगमो(म-उ)पवेश-ताम्बूल-
 सुगन्ध-रस-सेवन-नाय सार
 २२८: ७.
 सखी-समूह-हे सार २४७: १९.
 सख्य-ख्यानि नापु ४, ९९^०.
 स^०-गण-णः मना १, ११९^०; अरु
 ५९^०; -णम् शि ६, १५१.
 स^०-गद्गाद्-दम् गी ११, ३५.
 स^०-गुण-णः नाप ८, १^०; तु ३;
 राधा १, १७; -णम् शां १, १०^०;
 गोउ ६१; गोच ६९: १५; -णम्यः
 अज्ञ १०.
 सगुण-प्यान-नम् १योत १०५^०.
 सगुण-निगुण-
 सगुणनिगुण-स्व-स्वम् नाप ८,
 १; तु १४.
 सगुणनिगुण-स्वरूप-पः त्रिवि
 २, १५; -पम् मं २, १, ४; त्रिवि
 १, ५.
 सगुण-परिच्छिन्न(स-आ)दि-
 प्रतीति-तिः त्रिवि ३, ७.
 सगुण-प्रक्षन्-क्ष अदे २३.
 सगुणा(ण-आ)म-रूप-पम् वि
 १, ५.
 स^०-गुप्त-सम् प्रिता २, ५१.
 स^०-गुप्ततर-रम् प्रिता २, ५३.

स^०-गोधूम-नाः शि ४, ४६.
 स^०-गो-सुर-रः कृ ८^१.
 स^०-घृत-उम् शि ६, २२५.
 सं-कट^१-टे सु २, २, ४; -टेषु महा
 ६, ७३.
 सं/कल्>लि, संकलयन्ते सार
 २६७: १०.
 संकल्प-, संकल्पक-, संकल्पन-,
 संकल्पनीय-, संकल्पित-, सं-
 कल्प्य सं/कल्प् द्र.
 सं-कार-रस द्र.
 सं/कित(ज्ञाने)
 सं-केत-तः निर्वा २९७: १३.
 संकेत-(ज्ञ>)ज्ञा^१-ज्ञा सार
 २६३: ४.
 संकेत-रस-(ज्ञ>)ज्ञा^१-ज्ञा
 सार २६३: ५.
 संकेत-विहारिन्-रिणे सार
 २४७: १२.
 संकेत-स्थान-नम् सार २४६:
 ८; २५३: ७; -नात् सार २५३: ९.
 संकेतस्थान-(ज्ञ>)ज्ञा^१-
 ज्ञा सार २६३: ६.
 सं/कुच्, >कोचि, संकुचोच श्वे ३,
 २^१; अशि ५, ४; वट्ट ३१७: ३.
 संकोचयेत् योशि ५, ३९.
 सं-कुच्य त्रिवि ७२.
 सं-कोच^१-
 संकोच-विकास(स-आ)मक-
 महामाया-विलासा(म-आ)-
 मक-कः त्रिवि ३, ३.
 सं-कोच^२-चः पा ३, ४.
 सं-कोचन-नाय पा ३, ४.
 सं-कोचयित्वा पा ८, ७.
 सं-कोचित-
 संकोचित-पट-
 संकोचितपट-वत् वै १, १०.

संकुल^२-लम् सि ३, ६.
 संकृति^०-
 सांकृति^१-तिः अशि १^१; जाद १,
 २; १०, १३^०; -०ते अशि १;
 जाद १, ४; ४, २; ३; १०; ३३;
 ५, ३; ६, १; २२; ४५.
 सांकृत्य^१-
 सांकृती-
 सांकृती-पुत्र-त्रः, -त्राव् वृ
 ६, ५, २.
 सं/कृष्
 सं-कर्ष^१-र्षः योशि ५, १४.
 सं-कर्षण^१-णः ह ९; सं २; -णम्
 त्रिशा २, १४४; -णांय शु २, ५;
 त्रिवि ७, ४१; ह ९.
 संकर्षणो(ण-उ)पनिषद्-पत्
 सं १.
 सं-कृष्यमाण-णः सार २८०: १०.
 सं/कृ>किर
 सं-कर-रः योसु ३, १७; गी १,
 ४२; -रस्य गी ३, २४.
 सांकर्य^१-र्यम् नाप ५, १.
 सं-कीर्ण, णां-णां योसु १, ४२;
 -णाः सार २३३: १२.
 सं/कृत्>कीर्ति
 सं-कीर्तन-
 संकीर्तनी(य>)या-या शि १,
 ३४.
 सं-कीर्तयत्-यत् सं २०.
 सं-कीर्तित-ताः सु २, १२१^०.
 सं-कीर्त्य सूता १, २५.
 सं/क्रन्द
 सं-क्रन्दन^१-
 संक्रन्दना(न-आ)घ-घैः गोपु
 २४.
 सं/क्राम्, >क्राम्, संक्रामति मे २, ७;

a) वैपश् १ द्र. । b) श्रु १०, ७१, ३ । c) सं ६५ । d) श्रु ३, ४७, २ । e) श्रु १०, १५७, ३ । f) वा.
 क्रिवि. द्र. । g) 'णोन्' इति अख्या. । h) 'णं प्या' इति निशा. । i) स्वघो' इति अख्या., स्वघो' इति अख्या.
 संति. । j) पा ५, २, २९ । k) 'कोष इति अयन. । l) भावे श्रुं । m) कर्तारि कृत् । n) पु. टि. भावुक- । o) स्युः
 =गोत्रप्रवर्तक-श्रुतिविशेष- । p) 'तेः इति अख्या. संति. । q) 'कीर्ति' इति अख्या. यनि. कोचः द. (द्र. निशा.) ।

मैत्रि २,६; संकामन्ति त्रिता २,
६६.
सं-क्रम-मः जाद ४, ४५; -मे
रुजा २, १८.
सं-क्रमण-णम् जाद ४, ४०.
सं-क्रान्ति^१ -न्तौ भ २, २४.
सं/श्रीङ्, संश्रीङते सार २५५, १७;
संश्रीङति छाग २५, १; सम्...
श्रीङेत् छाग २५, १.
सं-श्रीङत् -ङतः छाग २४:११.
सं-श्रीङमान्, ना- -नः सार २३८:
१८; २५२: १५; २७४: १४;
-ना सार २८३: २०; -नाः सार
२३८: २०; २५३, १७; २७४:
२०; -नानि सार २५७: १५.
सं-श्रीडा- -डाम् सार २७५: ५;
२७६: २२.
सं-श्रीडित- -ताः सार २७४: १९.
सं/किल्लम्, > कलेति
सं-किल्ल-
सं-किल्ल-देवा(व-घा)ष्टु(दि-उ)-
भिहीर्षा- -र्षया मुद्र २१^५.
सं-कलेश- शास्य गौ ४, २४.
सं-कलेशायम् -यन् पा १०, ४.
सं/कल्प (<कृप्) > कल्प, कल्पि, सं-
कल्पते छां ७, ४, २^१; संकल्पन्ते
छां ७, ४, २^१; समकल्पेताम्,
समकल्पन्त छां ७, ४, २.
समकल्पताम् छां ७, ४, २.
संकल्पते ते ५, ८५.
सं-कल्पयते छां १, २, ६; ७, ४-५,
१; गौ ३, ३३; संकल्पयति घृ १,
३, ६^१; गर्भ २; संकल्पय महा
५, १८२; संकल्पयेत् योशि ५,
५५; समकल्पयत् महा ५, १६३.
सं-कल्प- -ल्पः के ४, ५; ऐ ५, ३;

छां ७, ४, १; ३; २६, १; ३१, ५, ३;
मैत्रि ६, ३०; ते २, ३४; ५, ९०^{१०};
९१^१; ९२^{१०}; ९५; ९६; ९७^१;
१००; महा ४, ५२; ५, १८१;
१८३; कर् ६; वरा १, १३; सु
२, २, ३५; लि ३१०:९; कथु ३,
६; -ल्पम् छां ७, ४, २; ३^१; ते ५,
८९; १०५; महा ५, १८२; १८३;
-ल्पस्य छां ७, ४, ३; -ल्पाः अक्ष
२, ७^१; भा ५; -ल्पात् छां ७, ४,
३^१; ५, १; ८, २, १-१०; महा ४,
१२४; १२५; ऋ ४, ४, ८; -ल्पा-
नाम् घृ २, ४, ११; ४, ५, १३;
अक्ष ५, १०९; -ल्पे छां ७, ४, २;
-ल्पेन महा ४, १२४; ५, १८३;
-ल्पैः ते ५, ४५.
संकल्प-क-
संकल्पक-विकल्पक- -कम्
ते १, १३^१.
संकल्प-कलना(ना-आ)दिक-
-कम् ते ६, ७१.
संकल्प-जात- -ते महा ४, ५३.
संकल्प-तस(>:) महा ५, १६२.
संकल्प-ता- -ताम् महा ५, १८०.
संकल्प-व- -वम् अक्ष ५,
१०२.
संकल्प-वशा- -शाः अक्ष ५,
१०३.
संकल्प-नाश- -नाः मं २, ३, ६.
संकल्प-नाशन- -ने महा ५,
१८२.
संकल्प-निश्चय-स्तरणा(ण-अ)-
भिमाना(न-अ)नुसंधान- -नाः
पै २, १४.
संकल्प-पादप- -पम् १ संख्या २,
५४.

संकल्प-प्रभव- -वान् गौ ६, २४.
संकल्प-मनस- -नसी महा ४,
५३.
संकल्प-मात्र- -प्रम् वरा २, ४५;
-श्रेण ध्या ६४; योचु ३४.
संकल्पमात्र-कलन- -ने,
-नेन वरा २, ४५.
संकल्पमात्र-संभव- -वा नि
४०.
संकल्प-रहित- -तः मैत्रे ३, ७;
-तान् १ संख्या २, ६६.
संकल्प-घर्जन- -नात् महा ६,
३९.
संकल्प-यासना-रज्जु-येषित-
-तः महा ५, १२७.
संकल्प-विकल्प- -ल्पे हं २१.
संकल्प-विकल्पा(ल्प-अ)ध्यय-
साया(य-अ)भिमाना(न-अ)व-
धारणा-स्वरूप- -पाः शारी १.
संकल्प-विवर्जित- -तः शो ५, ६३.
संकल्प-संक्षय-वश- -शात्
महा ३, ५३.
संकल्प-सि(ङ>)डा- -डा महा
४, १२३.
संकल्प-हारा(र-अ)र्थ- -र्थम्
महा ६, ७४^६.
संकल्पा(ल्प-अ)दुः- -रम् महा
५, १७८.
संकल्पा(ल्प-आ)क्रमक- -क्रानि
छां ७, ४, २.
संकल्पा(ल्प-आ)क्रमन्- -नमा
गुहा ५.
संकल्पा(ल्प-आ)दि- -दीन् ते
३, ६७.
संकल्पा(ल्प-आ)दिक- -कम् मं
२, ४, ५.

a) 'समेन श्रीङेत्' इति मे. । b) 'पादिजि' इति निमा. । 'दिसंजि' इति अम्ना. पा. १ यनि. शोचः इ. ।
c) गकृन् °कृप् इति अम्ना. । d) °कृप् इति अम्ना. । e) 'सकलः' इति निमा. । f) 'ल्यं रि' इति अम्ना.,
'कृष्ण' इति अम्ना. संदि. । g) 'यजोपविहारार्थम्' इति निमा. संदि., 'यजोपविहारार्थम्' इति अम्ना., 'यजो
विहिहारार्थम्' इति अम्ना. संदि. ।

संकल्पा(ल्प-अ)ध्यवसाया-
(य-अ)मिमान-लिङ्ग- -ङ्गः मै
२,५; ४,५; मैत्रि २,५; ५, २.
संकल्पा(ल्प-आ)दा(शा-अ)नु-
संधान-वर्जन- -नम् महा ४,६.
संकल्पा(ल्प-अ)हंकार-सम-
न्वित- -तः श्वे ५, ८.
संकल्पै(ल्प-ए)क-विनिर्मित-
-तान् अक्ष ३, १४.
संकल्पै(ल्प-ए)का(क-अ)यन-
-नानि छां ७, ४, २.
संकल्पो(ल्प-उ)पशम- -मेन सु
२, २, ३७.
सं-कल्पक- -कम् अना १६; सांका
२७.
सं-कल्पन- -नम् महा ४, ५२; ५,
१८१.
संकल्पन-स्पर्शन-दृष्टि-मोह-
-हैः श्वे ५, ११; भव २, २४.
संकल्पनीय- -यम् छां १, २, ६.
संकल्पनो(न-उ)न्मुख- -तः
अक्ष २, ३९.
सं-कल्पित- -ते सांस् ३, २८.
संकल्पिता(त-आ)का(र>)रा-
-रा महा ५, १२५.
सं-कल्प्य सी ३२; ३३; महा ४,
१२३; शि ७, ७२.
सं-कल्पि- -प्यै छां ७, ४, २.
सं/क्षि(क्ष्ये),संक्षीयते अक्ष १, २३;
सी २, १५.
सं-क्षय- -ये निह २, ९.
सं-क्षी(क्ष्य>)णा- -या नाद ४९;
योशि ६, ७१.
सं/क्षिप्
सं-क्षिप्त- -सम् सांका ७१.
सं-क्षिप्य अना १६; नाप ४, ३८;
योशि १, ७७^b; जाद ३, ९.

सं-क्षेप- -पात् श्वे ५३; योशि १,
१३९; शि १, ५; पेण शि ६, १२६.
संक्षेप-तप्त(>) गु २४.
सं/क्षुम्, संक्षुभ्यते योशि १, २९.
सं-क्षोभ-
संक्षोभ-कर- -०२ अक्ष ५.
सं/खिद्, समखिदत्, संखिदेव छां
५, १, १२.
सं/ख्या
१सं-ख्य- -ख्यम् पाशु २, ५^d.
२सं-ख्य- -ख्ये गो १, ४७; २, ४.
सं-ख्या- -ख्यया शि ४, ३४; -ख्या
योच् ६७; शि ६, ११०^f; २५७;
२७४; भव १, ६; -ख्याम् अहैभा
१९.
१सांख्य^g- -ख्यम् गर्भ ४;
निह १, २०; -ख्ये अक्ष ५, ४९.
सांख्य-शास्त्रा(ख-अ)-
भ्यास- -सः नाप ५, १; १संन्या
२, ५९.
सांख्या(ख्य-आ)दि-
तरव-भेद- -दाः अक्ष ११^f.
२सांख्य- -ख्यम् गी ५, ५;
-ख्ये गी २, ३९; १८, १३; -ख्येन
गी १३, २४; -ख्यैः सुवा ९;
वरा ४, ३५.
३सांख्य- -ख्यम् मन्त्र
१४; चू १४; -ख्याः अक्ष ५,
४९; -ख्यानाम् गी ३, ३; -ख्यैः
गी ५, ५.
सांख्य-दृष्टि- -ष्टीनाम्
अक्ष ३, २०.
सांख्य-योग- -नेन प्रा
१, १^f; सु १, १६; -नौ गी
५, ४.
सांख्ययोग-समाधि-
-धिना वरा ४, ३७.

सांख्ययोगा(ग-अ)-
धिगम्य- -ज्यम् श्वे ६, १३; गु
७१; भव २, ४९.
संख्या(ख्या-अ)तीत- -ताः महा
५, १३६.
संख्या(ख्या-अ)न्वित- -तम्
ध्या ६३.
संख्या-रूप- -येण सी ३३.
संख्यो(ख्या-उ)पसमह- -हात्
प्रस् १, ४, ११.
सं-ख्यात- -तः पा ५, ६.
सं-ख्यातुम् शिवा २, ७६.
सङ्ग- /सङ्गद्.
सं/गच्छ्,गम्, संगच्छन्ते सार
२४५; १६; २४६; १०.
सं-नात- -तः योशि १, १४२; -तम्
क १, १, ८; योच् ६४; -ताः शा
११^h.
सं-गति- -तिम् नाप ५, ३०; योशि
१, ५०; शि ६, २०४.
सं-गाय- -ये व ४३७; १५ⁱ.
सं-नाम- -नम् १योत ६१; इ १३;
११; -मात् ध्या ८९; योच् ६२;
-मेन सार २२६; २०.
सं-नाम(न>)नी^j- -नी दे ३५^k.
सं-गाव^l-
संगव-वेला- -लायाम् छां २, ९, ४.
सं/गृह्(>म्),ग्रह्,संग्रहेव् योशि
१, १४७.
संग्रमाय वप् १, ४५^m.
सं-गृहीत-
संग्रहीत-त्व- -त्वात् योम् ४,
११.
सं-गृह्य वृजा ३, ३४; नाप ३, १७;
योशि १, ७१^m; ९५; यो १, ८३;
२, १५; भ १, ५; ६; २, २१; जावा
१६.

a) अथिष्ठिभवात् इति अख्या. संति. । b) ०क्षेपात् इति आन. । c) भावे कृत्. । d) सां इति निवा. ।

e) अथिकरणे कृत्. । f) संख्या इति अख्या. संति. । g) 'सांख्येन' इति अख्या. । h) 'अयन्तः' इति अख्या. ।

i) वैपश्चर्य. । j) अक्ष १, ९१, १६. । k) अक्ष १०, १२५, ३. । l) अक्ष ८, ८१, १. । m) 'संयम्य' इति आन. ।

सं-ग्रह--हः १संन्या २,८०^३; सांस् १,२६; -घेण क १, २, १५; मुद्र १, १; मु ३९; गी ८, ११.
 सं-ग्रहण-
 सांग्रह(ण्)>गी^{१२}- -ग्या १अव ६.
 सं/गै,>गा,संगायाभि सार २२७: २०.
 संगीयन्ते सार २२८: १८; २८१: २.
 संगीयत्व- -यन्तः सार २३७: १; २९२: १९.
 संगीयन्ती- -न्त्यः सार २३४: १०; २६७: २३.
 संगीयमान,ना- -नः सार २२०: २०; -वा सार २८७: २; -ना: सार २२८: ६; २६८: १; २६९: २१; २७६: ५.
 संगीत-
 संगीत-(त्रे)>त्रा^१- -शा सार २३४: ८.
 संगीत-वाल-लय-वाद्य-वदा- -नाम् वरा २, ८२.
 संगीत-रस- -सम् सार २२६: १२.
 संगीत-रसि(क)>का- -काम् रा ४२४: २३.
 संगीत-साहित्य-कला-कुसा- (ल)>ला- -ला: सार २७०: १७.
 संगीयमान- -नः सार २३०: १९.
 संग्राम^७- -मम् पी २, ३३.
 सं/घट्ट-
 सं-घट्टन-
 संघट्टना(नि-अ)धीया^१- -या: पा १९.

सं-घात- सं/हन्
 सं/घृष्ट,>घर्षि
 सं-घर्ष- -र्षात् महा ५, १४९.
 सं-घर्षण- -णात् वो २, ३३.
 सं-घर्षयित्वा^१ प्रिता ३, ६.
 सं-घृय्य वो २, ४१.
 सं/सच्, सचते वृपू २, १०५^३; सचन्ते मवा १, १४५^३; सचत्>ता मना १, १३५^३; सचताम् मना २, ४५५.
 सचमान- -नः सु २९४: ६५^३.
 सं-चरा(र-अ)चर- -रम् गी ३, २१; प्या १६; गी ९, १०; ११, ७.
 सं-चरा(र-अ)चर-चेष्टित- -ता: महा ३, ४; भव १, २६.
 सं-चामर- -रम् राष्ट्र ४, २३.
 सं-चारक-चि(धा)>ध- -धम् मैत्रि ६, १४^३.
 सं-चित्त- -चः महा २, ६१; ६, २११^३.
 सं-चेतन-
 सचेतन-निचेतन- -नः वज २, १६.
 सं-चेतस्- -ता: गी ११, ५१.
 सं-जन- -ने वृ ३, १३.
 सं-जल-
 समल-प्रावृषेण्य-धनराशि-नि- (भ)>भा- -भा तारा ८३: १८.
 सं-जय- -यम् पा ७, २.
 सं-जाति-
 सजातीय- -यम् ते ३, ४७; ५, ८१.
 सजातीय-प्रवाह- -हः ते १, १८.
 सजातीय-विशेष-विशेषित- -तम् त्रिवि ७, १७.
 सं-जीव- -वः वरा ५, ७४.

सं-जीवस्- -या: मना १, ११५^३; व ४६०: २५^३; वज ३, ६.
 सं/सज्जु(<सस्जु),सज्जते १संन्या २, ९०; पितृ ३, ८; गी ३, २८;
 सज्जति नाप ३, ६३; सज्जन्ते गी ३, २९; सज्जेत नाप ५, २१.
 सज्जमान- -नः पा २, ७.
 सं-चक्र- -काय त्रिवि ७, ४२^३.
 सं/चर्(वधा.),>चारि,संचरति धे ५, ३; ७; मना २, ८०५^३; गर्भ २; दुभा ५^{१४}; नाप ६, १; त्रिवा २, १७; वां १, ४^१; शारी १; भव २, २३; सम्...चरति व २; संचोत् नाप ४, ३८; ५, ३६; ६, २७; ७.
 संचारयेत् लु ९.
 सं-चर- -रः कां १, १३, ३.
 सं-चरण^१-
 संचरणा(ण-अ)र्ष- -र्षाय १संन्या २, ५९.
 सं-चर(ण)>गी- -गी वृ ४, २, ३.
 सं-चरत्- -रताम् निव १, ९; -वृ वृ १, ५, २०; ११; दुभा ७^{११}; दुअ २१; अध्या १^१; कुं ३; -रन्तः छोट, ३, २; -रन्तम् २शिषं ११.
 सं-चरमाण- -णात् पा २, ८.
 सं-चार- -नः नाप ६, १; वारा २, ११; सार २६४: १८; २८३: १६; -रा: सार २२५: १२; २८४: १३; -रे सार २८२: ३.
 संचार-चक्र- -कम् मैत्रि ६, २८.
 संचार-धर्म-रहित- -ते वरा २, ६१.
 संचार-शील- -ला: दुअ २०.

म) अन्यपरि इति शब्दाः । क) केषु यद् । ०) वा. । d) पा ७, १, २८ । ०) मा ८, २६ । f) *त् इति शब् १, १६४, ५० । g) शब् १०, ७५, ५ । h) तैमा ३, ७, १४, ५ । i) शब् ९, ९६, १९ । j) = एत । k) स चा इति शब्दः । l) 'सञ्चितः' इति निता. १ यति. शोधः द. (प्र. शब्दाः) । m) = एत । n) शब् ३, ४७, १ । ०) शब् १०, ८३, २ । p) सञ्च इति शब्दाः. संदि. । q) तैमा १०, ९४, १ । r) माने... । s) करये कृत् । t) 'चरित' इति शब्दाः ।

सं-चारि(र>)णी-णीनाम् सार
२२४:४.
सं/चल>चालि,संचालयेत् यो १,
७,१७.
सं-चालन-जेन यो १,१०.
सं/चि(यधा.),संचिनुते योशि ५,
२५; संचिनोति राउ ५,१५;
योशि ५,२४.
सं-चय-च: १संन्या २,७९;
८२.
सं-चित,सा-सम् अशि ५,६;१९;
राउ ५,१२;१७; पै २,७; अथ्या
५०; वट्ट ३१७:७; -ता: पै ३,
१; अथ्या ३७.
संचित-कर्मन्-मैणि शां १,७,
५२.
सं/चिन्त्>न्ति, संचिन्तयामि
मै ५,७७.
संचिन्त्य नृउ ४,३; त्रिवि ५,१२;
मी ४२१: ६; वउ ४,४५.
संचिन्त्युवाध्यायिन्-यिन: २३
३५: १८५.
सं/चञ्च,असक्त वृ १,३,८.
सञ्चयेत् वृ ३,९,२६; ४,२,४^d;
४,२२^d; ५,१५^d
सक्त-क्त: वृ ४,५,६; मैत्रि ४,२^e;
मैत्रे १,४,१; गी ५,१२; -क्तम्
अध १,५६; २,८; गी १८,२२;
-क्तस्य मैत्रि ६,२८; -क्ता: गी ३,
२५.
सक्त-क्त: योचू १०७; त्रिवि ५,६;
अक २,१; २; ५,५^f; गार २२७:
१०; २३५: १४; २४२: २३;
२५०: ६; २७८: १०; भव ५,
२१; गी २,४७,६२; ऋम् १योत
६१; ६२; अल ५,४; गार २५०:

७; २७९: १२; २८१: १५; १६;
गी २,४८; ५,१०; ११; १८,६;
१; -क्तम् गी २,६२; -क्तम् नाप
३,५२; -क्ते सार २३४: २०;
-क्तेन सार २२७: ९; २३५: २१;
२३६: २१; २४६: १०; २८९:
८; २९१: २.
सक्त-व्याग-गम्, -गात् अक्ष
५,४.
सक्त-रहित-त: गोपू २६; -तम्
गी १८,२३.
सक्त-वर्जित-सम् गी ११,५५.
सक्त-विवर्जित-त: गी १२,
१८.
सक्त-स्मया(य-अ)करण-णम्
योचू ३,५२.
सक्त(इ-अ)तिरिक्त-क्ता: सार
२७८: १५.
सक्त(इ-आ)पत्ति-त्ति: सांस्
५,८.
सक्तिन्-क्ती अक्ष १,१४; १६.
सं/जन्,जा,जनि,संजायते श्वे २,
६; अशि ६,१२; सुवा १; त्रिवा
२,११; वरा ५,६४; सु२,२,२५;
गी २,६२; १३,२६; १४,१७;
समजायत वृजा ६,४; सम्...
अजायथा: व ४३७: २०५.
संजनयिष्यसे पा ३,८.
सं-जनयत्-यन् गी १,१२.
सं-जात-तम् नाप ३,११; पा १०,
८^h.
सं/जप्
सं-जपत्-पन् जाद ६,८.
सं/जि,संजयति गी १४,१ⁱ.
सं-जयत्--०य गी १,१; -य: गी १,
२; २४; ४७; २,१; ९; ११,९;

३५; ५०; १८, ७४.
१सं-जिहान-सं/हा(गतौ) द.
२सं-जिहान-सं/हा(त्यागे) द.
सं/जीव,संजीवसे पा २,२.
सं-जीव^l-
संजीव्य^l-
संजीवी-
संजीवी-पुत्र^l-त्र;
-प्राव वृ ६,५,२; ४.
सं-जीवन^l-
संजीवन-पर्यतो(त-उ)पाटन^l-
-०य लां २१४: १५.
सं/जुप्
सं-जुयमाण-ण: पा ४,१.
सं-जेनातिस्^l-ति: पा १०,५.
सं/ज्ञा
सं-ज्ञा-ज्ञया योशि ६,३३; -ज्ञा वृ
२,४,१२; १३; ४,५,१३; यो ३,
१; -ज्ञा: महा ४,४५; ५७; -ज्ञाम्
भव २,५५.
संज्ञा-वस(>)वृ ३,३,८.
संज्ञा-भात्र-यम् सांस् १,६८.
संज्ञा-सूर्ति-कलसि-सि: प्रस्
२,४,२०.
संज्ञा(ज्ञा-अ)र्थ-धम् गी १,७.
संज्ञा-संशि-संयन्ध-न्ध: सांस्
५,९६.
संशित-ता: सार २८२: ५; -ते
कर ११^l.
सं-ज्ञान-नम् ऐ ५,२; म ४२: ११.
संज्ञान-फल-लम् ऊ ६४:
१०१^m.
संज्ञानसङ्कान्^l तारा ८४: ६.
सं/ज्वल्>ज्वालि
सं-ज्वालय नृउ ३,१०; ७,१२.
स(ट>)टा^l०-टाभि: ऊ ६३: ५.

अ) लने इति अख्या. संदि. । b) चित्तं इति मैत्रि ६, ७ । c) पा. ३ संस्थानां इति शोध: द. (डु. गोत्रा १, २७) । d) ज्वते इति निसा. । e) भासं इति मै ४, २ । f) असं इति निसा. ? यनि. शोध: द. (डु. अख्या.) । g) ऋ १, ६, ३ । h) वा. १ । i) = गोत्रप्रवर्तक-श्रृषिविशेष- । j) जप. कर्तारि कृत् । k) विप. = दीप्तिमव- (विदु. पाटी.) । l) अतः प्राग् इति-कारो लुप्तः द. । m) ज्वेन फं इति पा. ? यनि. शोध: द. । n) पा. ? । o) व्यु. ? ।

१सत्- / अत्(भु)ि) द.

मच्-चित्-
 सचित्-मय- -यः मैत्रे ३, १६;
 -यम् ते ६, १^१; ९; महा ६, ११.
 सच्-चित्-पदानन्द-मसन्- -अ
 महा २, ११.
 सच्-चित्-सुख-परिपूर्ण-
 सचित्सुखपरिपूर्णता-
 सचित्सुखपरिपूर्णता-स्म-
 रण- -णम् भा ३४^४.
 सच्-चित्-सुखा(रा-आ)मक-
 -कः सु २, ३, १८.
 सच्-चित्-सुखानन्द-मसन्- -अ
 शु ३, १०.
 सच्-चित्-भामन्- -स्मानम् वरा
 २, १८.
 सचित्ताम्ना(म-अ)बलोफन-
 -नात् ते १, १९.
 १सच्-चित्-आनन्द^१-
 सचित्तानन्द-पूर्णा(र्षी-आ)मन्-
 -मसु वृ ४, ३; -या प्रवि
 १०८; -स्मानम् वृ ४, ३.
 सचित्तानन्द-मय- -यम् वृ १,
 १३; नि ४९.
 सचित्तानन्द-माश्र- -श्रः वृ ७,
 ३; ८; ते ६, ५८; ६३; १०७;
 प्रवि १०९; -श्रम् वृ ५, ३; ते
 ६, २.
 सचित्तानन्द-माश्रक- -कः ते ४,
 ३९; वृ ५२१^१; -कम् ते ६, ३०.
 सचित्तानन्द-मूर्ति- -मैत्रे नि १.
 सचित्तानन्द-रूप- -यः ते ५,
 ६७; ६, २; ७१; रार ५, ४; -यम्
 वृ ७, ५^१; ससा ५; शु २, ५;
 ३, ११; अज ४, २९; राप् ५, ८;
 वृ २६; -या सि ४, ११; -याय
 गोप् १; नाउ २, २.

सचित्तानन्दरूप-तरा(>) १)
 सार ३, ११.
 सचित्तानन्द-रूपक- -कम्
 १योत १७.
 सचित्तानन्द-लक्षण- -०ण शु
 १, ९; -णः मैत्रे ३, १२; ते ३,
 ३१; पै ३, १; अज ५, ६८; सु १,
 १, ४^१; -णम् शु ३, १७; योशि
 २, १६; कृ १; वरा २, ६.
 सचित्तानन्द-लह(र>)री-
 -री व ११.
 सचित्तानन्द-विग्रह- -हम् गोप्
 ३३.
 सचित्तानन्द-सुख-
 सचित्तानन्दसुखिन्- -स्त्री
 दाता १, ६.
 सचित्तानन्द-स्वरूप- -यः रार
 १, ९; नाउ १, १; -यम् नि ३१;
 अता १०; -याय नाउ २, ९.
 सचित्तानन्द-स्वरूप-पर-
 यस्तु- -स्तु नाप् १, ३.
 सचित्तानन्द-स्वरूपा-
 (प-अ)नन्ता(न्त-आ)नन्द-
 पत्र- -पैः सि ६, १८.
 सचित्तानन्द-हीन- -नः ते
 ५, ८.
 सचित्तानन्दा(न्द-आ)मक-
 -कः त्रिवि ८, ५; -कम् सार २८९;
 १७; -क्याः गाप् ५, ३०.
 सचित्तानन्दा(न्द-आ)मन्-
 -स्मानम् राउ ३, ३.
 सचित्तानन्दा(मो(म-उ)-
 पासक- -कः त्रिवि ८, ५.
 २सच्-चित्-आनन्द^१- -न्दः पं ३५;
 मया ६; सर ३, २७; सार २८९;
 १९; -न्दम् वृ २९; ३०; ते ३,
 २६; ६, १^१-२^१; ३; ३८; ४९;

मं २, १, ७; वा १७; महा ४,
 ८०; अत ५, ७४; अथ्या ३२;
 नाउ ९, ५; -न्दे योशि १, १२८;
 वरा २, २३.
 सचित्तानन्द-क- -का ते ६, ३.
 सचित्तानन्द-सापर- -रः सार ३,
 २४.
 सचित्तानन्द-तेजः-वृट्-
 रूप- -यम् मं १, २, ४; अता २.
 सचित्तानन्द-स्वप्रकाश- -घाम्
 त्रिवि १, ५.
 सचित्तानन्दा(न्द-आ)य्य-
 -ययाः राउ १, २.
 सचित्तानन्दा(न्द-अ)दय-
 चिदन- -नः पव ४२०; १६.
 सचित्तानन्दा(न्द-अ)द्वितीय-
 -यः ग ५.
 सचित्तानन्दा(न्द-ए)करस- -से
 गोउ ६३.
 सच्-चित्-आनन्दपन-ज्योतिस्-
 -तिः वृ ६, १; २.
 सच्-चित्-आनन्दा(न्द-अ)द्वैत-
 (त-ए)कचित्- -भामन्- -रमा
 राउ ५, १.
 सच्-चित्-एकरस- -सः नाप ८,
 १६; १८.
 सच्-छब्द- -ब्दः गी १७, २६.
 सच्छब्द-घाच्य- -च्यम् त्रिमा
 १, २; त्रिवि २, १४.
 सच्-छाद्य- -द्यैः भय १, ५०.
 सज्-जन- -नाम् अदि ८.
 सज्जन-संपर्क-पूर्वक- -कैः महा
 ४, ४.
 सत्-कथा-
 सत्कथा(धा-आ)क्षित-मानस-
 -साः सार २३५; २०.
 १सत्-कर्मन्- -र्गाणि अव ४, १०.

घ) बस्रा. द. । b) वामे. कृते दृ. निसा. संदि. । ०) दानन्दम् इति श्रव्या. । d) इत्. । ०) यनि इति
 व्यव्या. । f) न्मात् इति निसा. । यनि. शोधः द. (उ. श्रव्या.) । g) न्द्विग्रहः इति निसा. । h) विप. । i) आनन्द-
 सचित् इति निसा. । j) कव. ।

सत्कर्म-निरत- -तः भव ४, ९.

सत्कर्म-परिपाक- -कात् यो ३,
२८.

सत्कर्मपरिपाक-तत्त(>) पे
२, ५०; ३, १.

२सत्-कर्मन्- -मां पा ४, १०.

सत्-कषाट- -टम् शि ४, ३.

सत्कषाट-द्वयो(य-उ)पेत- -तम्
शि ४, ४.

सत्-कार्य- -

सत्कार्य-सिद्धान्त- -न्तः सांस्
५, ६०.

सत्-कुल-

सत्कुल-प्रसूत- -तः नाप २.

सत्कुल-भव- -वम् नाप २; मु
१, २, ६^b.

सत्कुलभवो(य-उ)पनीत-
-तः नाप १.

सत्कुलीन- -नाय कालि ४०३;
१८.

सत्-^o/क

सत्-कार-

सत्कार-मान-पूजा(जा-अ)-
यं- -यम् गी १७, १८.

सत्-कृत- -तः योच ६७; २३.

सत्-कृत्वा^d शि ६, २६९.

सत्-कृत्य- -रयम् भव १, ३६.
सत्कृत्य-करण- -णम् भव ५,
१९.

सत्-कृष्टि^e- -ष्टिः सौ १, ३^f.

सत्-त्तम- -० म धृजा ३, ३३; त्रिमा
२, ३०; भव २, ५१; -मः २ अव
३ ३७; ७; -माः छां २, ९, ५.

सत्-ता- -ता महा २, ५; ४, ४७;
१२०; ५, ४७; १ संन्या २, ५६;
५७; अन्न ४, २२; पाशु २, ४४^g;

-ताम् महा ४, ५४; -तायाः अन्न

४, ६५.

सत्ता(ता-अ)तिरेक- -केण पाशु
२, ४४.

सत्ता-मात्र- -ग्रम् नृउ ९, ९;
गोउ ४१; -ग्रात् सांस् ५, ९; -ग्रे
महा ४, १३.

सत्तामात्र-प्रकाश- -शः ते
५, ६९.

सत्तामात्रप्रकाशौ(श-ए)-
क-प्रकाश- -शम् मैत्रे १, ४, ९^h.

सत्तामात्र-स्वरूप- -पः ते
३, ३०.

सत्तामात्रस्वरूपा(प-आ)-
रम्- -रमा ते ४, ४५.

सत्तामात्रा(त्र-आ)भक्त-
-कम् अन्न ३, १७.

सत्ता(ता-अ)संभव- -चात्
सांस् १, ४^b.

सत्ता-सामान्य- -न्यम् अन्न ४,
६७.

सत्तासामान्य-ता- -ता अन्न
१, २३; २४.

सत्तासामान्य-पर्यन्त- -न्ते
अन्न ४, ६८.

सत्तासामान्य-रूप- -ये अन्न
४, ७६.

सत्तासामान्यरूप-रव-
-रवात् अन्न ५, १५.

सत्तासामान्यरूप-वत्-
-वान् अन्न ५, १८.

सत्तासामान्यरूपिन्-
-पिणः महा ५, १७८.

सत्ता-सामान्यक- -कः तो ५, ६९.

सत्ता-सामान्य-कोटि- -स्थ-
-स्थे अन्न ४, ७४.

सत्-पति- -तिः प्र २, ११.
सत्-पय- -पय पा ५, १.

सत्-परानन्द-रूप- -पः ते ३, ८.

सत्-पुण्डरीक-नयन- -नम् गोपू८.

सत्-पुत्र- -ग्रम् शि ६, २२२.

सत्-पुरुष- -पाः ते १, ४४.

सत्-पूजा- -जाम् शि ७, १०८.

सत्-प्रति(छ>)छा- -छाः छां ६, ८,
४; ६.

सत्-फल- -लम् शि ६, ४१.

सत्-संसर्ग- -र्गः नि ३३.

सत्-सङ्ग- -ङ्गः ते ५, ५३.

सत्सङ्ग-माहारम्य- -रम्यम् सार
२ ३४; १७.

सत्-समागम- -मैः भव १, ५०.

सत्-संप्रदाय-स्थ- -स्थम् नाप २.
सत्-स्वरूप-

सत्स्वरूप-ता- -ताम् सार २ ४८;
१४.

सत्-अधीयान- -नः मैत्रि ६, ३०.

सत्-अश्व- -श्वाः क १, ३, ६.

सत्-असत्- -सत् सुं २, २, १; गौ४,
२२; सुभा १; २¹; ११; १३-१५;
पव २; महा २, ६७; -सती अन्न ५,
१०७; -सतोः महा ५, ६९; १७२.

सदसती- -ती सता १, ३९.

सदसत्-स्थिति- -तिः सांस् ५,
५६.

सदसत्-रव- -रवाभ्याम् १ आ
२७.

सदसत्-फल-
सदसत्फल-मय- -यैः मै ४,
२; मैत्रि ४, २.

सदसत्-आत्मक- -कः त्रिवि १,
१; -कम् भव २, १३.

सदसत्-आस्था- -स्थाम् महा
६, ५३.

सदसत्-भक्ति-वर्जित- -तः छ
१७.

a) वस. । b) सुकु^o इति निसा. । c) गतिरव^o द्र. (पा १, ४, ६३) । d) पा ७, १, ३८ । e) =शक्ति-
विशेष- । f) उरुक^o इति निसा. संटि, अख्या. । g) ^oकस्वभावम् इति अख्या. । h) सत्त्वा^o, आर्यन्ता^o इति च
पामे. । i) अस^o इति निसा. यनि. शीघ्रः द्र. (द्र. अख्या.) ।

सदसद्-भेद-हीन- -नः मैत्रे
३, ७.
सदसद्-योनि- -निम् मे ३, १;
२; मैत्रि ३, १, २.
सदसद्-योनि-जन्मन्-
-जन्म भव २, १; यी १३, २१.
सदसद्-विलक्षण, शा- -गः
त्रिवि १, १; -या त्रिवि ३, ७.
सदसद्-विहीन- -नम् के २, ५.
सद्-अक्ष(क)>का-काः पी३२२ः
१४.
सद्-आधार- -रः पम ३, २; गोच
द८ः १; -रत्न त्रिवि ५, ६.
सदाधार-प्रवृत्ति- -तिः त्रिवि
५, ६; महा ५, २८; वरा ४, ४.
सदाधार-रत्न- -तः सु १, १, २२.
सद्-आधार्यं-मूल- -हः ३३; सन्म
भता १३.
सद्-आत्मक- -कः ते ३, २२.
सदात्मक-रव-
सदात्मकत्व-विज्ञान-दग्धा-
(स्य-प्र)विधादि-वर्धन्-
-मैत्र्यः १आ २५.
सद्-आत्मा(स-आ)त्मन-क-
(१)>मा- -पाम् त्रिता २, २६.
सद्-आनन्द-पान(>)ना- -ना भा
२६.
सद्-आनन्द-विन्-मात्र- -अम्
वृष्ट ९, १७.
सद्-आयतन(>)ना- -नाः छां ६,
८, ४, ६.
सद्-उपपत्ति- -त्ताः सांम् ६, ५३.
सद्-एक-रस- -सम् वृष्ट २, १, २.
सद्-नाश- -शः वर २, ९.
सद्-गति- -तिः अशि ४, १७; वृष्ट

३१६ : १०.
सद्-गन्ध-शु(दक)>टिका- -काम्
शि ४, ३३.
सद्-गुण- -रम् शु १, १८; नाप २;
पै २, ५१; पप ४१८:३३; सु १,
२, ६; -रोः महा ४, ७७; वरा २,
७६.
सद्-गुरु-कटाक्ष- -क्षः त्रिवि ५,
८; -क्षम् त्रिवि ५, ७.
सद्-गुरुकटाक्ष-लेना-विशेष-
-वेण त्रिवि ५, ७.
सद्-गुरु-समीप- -वे पप ४१८:१
सद्-घन- -नः वृष्ट ८, १; -नम् त्रिवि
७, २०; अश्या ६१.
सद्-धे(<रे)शुक- -कम् गौ ४, ४०.
सद्-ध्यायिन्- -यी मैत्रि ६, ३०.
सद्-मद्यन्- -क्षणि मैत्रि ६, ३०; वर
४, ३१.
सद्-सन्ता- -ताम् ते १, ४५.
सद्-भाव- -वम् ते ५, ४७; ४८; -वे
गौ १७, २६; -वेन गौ ४, ५७.
सद्भाव-भावना-दाख्यं- -वर्षा
अश्या १३.
सद्-यति- -तिः नाप ४, २.
सद्-याचिन्- -जी मैत्रि ६, १०.
सद्-रस- -सम् वरा २, ७१.
सद्-रूप, पा- -पः अशि ३८; वरा
४, १७; सार २९०:३; -पम् महा
४, ५१; कठ २७; वरा ३, ४; सार
२९० : ९; -पया वार २९२:७.
सद्-रूप-त्व- -त्वम् वरा ३, ९;
-व्यात् महा २, ८.
सद्-वस्तु- -स्तु सु २, २, ५५.
सद्-वादिन्- -वी मैत्रि ६, ३०.
सद्-विद्यो(पा-व)पासक- -काः

सार २७३ : १८.
सद्-वृत्- -त्तम् त्रिवि ८, १८.
सद्-वृत्ति- -रया ते १, १६.
सद्-व्य- -व्यः अश २, २०.
सद्-माय- -यः वृष्ट २, ११; २, ८;
वर १, १७; -यम् वृष्ट २, ९; ते
३, ५९; सां २, १; ३, १; अक्ष ४,
६५; व १२; -यात् मैत्रे ३, ३३;
सर ३, ३०.
सम्मात्र-त्व- -त्वम् १आ २४.
सम्मात्र-रूप-
सम्मात्ररूप-त्व- -त्वात् ते
६, ३०.
सम्मात्रा(न-आ)नम्-
सम्मात्रानन्द-वन्- -वन्त् ते
३, ५१.
सम्मात्रे(न-ए)क-पर- -रः अश
४, ६६.
सद्-माय-सामन- -नाय अना २६.
सद्-मूल(व-व)ला- -लाः छां ६, ६,
४; ६.
२सत्* छां ८, ३, ५.
३सत्* यी १, ६.
सत्-सपडुल- -लैः म २, १४.
सत्तत्- सं/सत् द.
सत्-सत्त्व- -त्वम् काला ३.
सत्-सन्त्र- -न्त्रम् वृष्ट २, २.
सितस्यत्यैशीकरामिः* ७ व २१:२.
सत्-तार- -रम् वृष्ट ३, १.
सत्-तारक- -कः शिव २, ६.
सितीयम्* छां ८, ३, ५.
सत्-सूर्य(>)यां- -यां: क १, १, २५.
सत्त्व- -त्वः पा ४, ४; -त्वम् क
२, २, ७; मै ४, ३; मैत्रि ४, ३;
५, २; ६, २८; मैत्रे १, ४, ३;

अ) कस। b) 'सद्भवा' इति अज्या। c) छ. ग. ३१४१५। d) यन्मा इति तिसा, अज्या। यनि.
शोच्ये द. (छ. धान.)। e) 'सितीयम्' इत्यस्य तातोऽवयवः परासृष्टः द.। f) 'सत्त्व->स्यम्' इत्यस्य तातोऽवयवः
परासृष्टः द.। g) = ६स। h) पा. 'संततं शिराभिस्तु' इति शोच्ये द. (छ. तैषा १०, ११, २)। i) उप. = १तार-।
j) उप. = २तारक-। k) पा. १ पुनः प्रतिनिर्देशतः 'सत्तियम्' इत्येवं शोच्ये द. ['सत्तिय->नेम, सत्त्व- इत्यपि संधिः
(पैतु. सं. यनि. समावायुक्तः)]। l) बरा. वैव १ यम.। इव = प्राणित्-, सुदि-, गुणविशेष- प्र.। मुपा. तत्र तत्र
तत्रनेकवदित्वां कर्त्तव्यं निर्देशसौकर्यार्थं सर्वत्र तत्कारद्वयं द.।

जाध; काला १४; नृत् ९, ४; नाप
 ३, ७७; रात्र ५, ४; पा ४१८;
 १०; अल ४, १९; भा २७; वो ३,
 ८; मोड ५५; या १, १; जावा
 २३; पा २, १; ३, ९; ४, ८; ९, ९;
 ५, १; २; १०, ९; वड ३, १७;
 ५२; ५३; भव ४, १८; सांका १३;
 गी १०, ३६; ४१; १३, २६; १४,
 ५; ६; ९; १०; ११; १७, १; १८,
 ४०; -रव्य ३ ३, १२; मे ४,
 ५; मैत्रि ५, २; भव ४, ९; -न्याय
 क २, ३, ७; मे ४, ३, ५; मैत्रि
 ४, ३; मैत्रे १, ४, ३; प्र २, १,
 १६; गी १४, १७; -न्यानाम्
 मुवा १३; पा ४, ८; -न्याय अचि
 १; -रवे गी १४, १४.
 सच्य- -रव्य पा ४, ८.
 सारिवक- -क वड ४, ४६; -क:
 मे ४, ५; मैत्रि ५, ३; मैत्रे ३, ६;
 रवा १३; वोच ७२; ७५; शारी
 ५; पाशु १, १०; वड ४, ११;
 २५; सांका २५; गी १७, ११;
 १८, ९; २६; -कम् शारी ५; दत्ता
 १, १; हे १; भव ४, ८; सांस् २,
 १८; सांका २३; गी १४, १६;
 १७, १७; २०; १८, २०; २३; ३७;
 -कस्य शारी २; -का: गी ७, १२;
 १७, ४; -काय मवा २.
 सातिवकी- -की मोड
 ६३; क ४; राधा २, ११; वड
 ४, १२; गी १७, २; १८, ३०;
 ३३; -क्या: वड ४, १६.
 सातिवक-व्य- -व्याय सा ३,
 १६.
 सातिवक-प्रिय- -या: गी
 १७, ८.
 सातिवक-माया(या-आ)रम-
 क- -क: पाशु १, १०.

सारिवक-राजस-तामस-
 -सात्र सा २९० : २०.
 सातिवकराजसतामस-
 लक्षण- -पानि शारी १.
 सातिवका(क-आं)ता- -दोन
 भव ४, ७.
 सच्य-क्षपा(य-आ)रमक- -के अक्ष
 ४, ३०.
 सच्य-तमो-गुण-प्रधान- -मै:
 मित्रि ६, ७.
 सच्य-तस(>) वरा ५, २६.
 सच्य-पुरीय-भाग- -गेन पै १, २४.
 सच्य-दर्शन- -ने मित्रा २, १२५०.
 सच्य-पुरुष- -ययो: योसू ३, १६; ५६
 सच्यपुदरा(य-आ)न्यता-न्या-
 ति-मात्र- -ग्रस्य योसू ३, ५०.
 सच्य-प्रधान(>)ना- -ना सर ३, १४
 सच्य-मुदि- -दि: ससा १, ४१.
 सच्य-मध्य- -रवे मैत्रि ६, ३८.
 सच्य-मुक्त- -कै: वरा ४, ३५.
 सच्य-नजस-तमस- -मसाम् सांस् १,
 ६१; -मोसि दे १०; वरा १, ११.
 सच्यनजस-तमो-गुण-रहित-
 -तम् अद्रे ११.
 सच्यनजस-तमो-गुणा(ए-आ)-
 मिक्का- -का गार ४०७ : ३.
 सच्य-राजस-तामसी- -सी कृ ४.
 सच्य-रूप- -प: ते ३, ३; -पम् गी ७
 ५९; पा १०, ४.
 सच्यरूप-परिप्राप्त-चित्त- -ता:
 अक्ष ४, ५३.
 सच्य-वत्- -वताम् गी १०, ३६.
 सच्य-विताल, ला- -ल: साका ५४;
 -ला सांस् ३, ४८.
 सच्य-वृद्धि- -द्वया भव ४, ९.
 सच्य-मुदि- -दि: -द्वौ हां ७,
 २६, २.
 सच्यमुदि-सौमनस्यै(र्य-रे)-

का:ये (भ्य-द्)मिद्रयजया(य-आ)-
 रमदर्शनयोग्यरव- -न्यानि योसू
 २, ४१.
 सच्य-मंयान- -ना: पा ५, २१.
 सच्य-संमुदि- -दि: गी १६, १.
 सच्य-ममहि-
 सच्यसमहि-तस(>) पै १, २५.
 सच्य-समाधि- -ष्ट: गी १८, १०.
 सच्य-सार- -रम् सां २१४ : २.
 सच्य-स्थ, रथा- -रथा: मैत्रि ६, ३०;
 पाशु २, १२; -रथम् चू २; -रथपा
 यो १, ६; -रथा: मन्त्रि २; महा
 ४, १७; गी १४, १८.
 सच्य-स्वरूप-
 सच्यस्वरूप-सन्मात्र-सिद्ध-
 सर्वात्मक- -क: प्रवि १०९.
 सच्य(रव-आं)ता- -ताम् पै १, २३.
 सच्यवा(रव-आ)रमक- -कम् पा १०,
 ५; ६.
 सच्यवा(रव-आ)रमन्- -रमनि महा ५,
 ३०; वरा ४, ६.
 सच्यवा(रव-आ)दि- -दि: ससा १,
 २१; -दीनाम् सांस् ६, ३९.
 सच्यवादि-गुण- -गान् मं १, ३, ३.
 सच्यवादिगुण-साम्य-
 सच्यवादिगुणसाम्य-तस
 (>) सर ३, १२.
 सच्यवा(रव-आ)धार- -रा: पा ५, २.
 सच्यवा(रव-आ)नुरू(प)पा- -पा
 गी १७, ३.
 सच्यवा(रव-आ)न्तर-स्थ- -स्थम्
 मैत्रि ६, ३८.
 सच्यवा(रव-आ)न्तर-वर्तिन्- -तिन्:
 मित्रा २, ७.
 सच्यवा(रव-आ)पति- -त्ति: महा ५,
 २५; ३०; वरा ४, १; २; ६-
 सच्यवा(रव-आ)वशेष- -प: अचि
 ३३; वरा ४, १३.

a) व. गण. पृ १२९ f. b) वृ वृ इति निया. c) भक्तियु इति अश्या. d) स्वरू इति आन. e) शुद्धौ सौ इत्यपि पाठे. f) र्वं सं इति पा. ३ यनि. शोध: द. g) सा इति अश्या. h)

सप्तो(एव-उ)दि(क>)का-कापे
१,६.

१सत्य,त्या- न्यः मना २, १५९^०;
७९९^०; अशि १, ६; मीये १, ४,
११; वृत् ९, ८; सुभा १३; ते५,
११; ६, ६९; सा २०; कृ १६^०;
पा ४, १०^१; ५, १; १^०; न्यम् के
२, ५; ४, ८; म १, १५; २, ८; सुं
१, १, १; ८, १, १; २, १, १; ७;
२, २; ३, १, १; २, १, १^०; २;
१, १, १^०; १, १, १; १, १, १^०; २;
१, १, ४, १; ऐ सां^०; ४, १; छां
१, २, १; ४, १, ७, १; ६, १, ४-६;
४, १-४; ८, ७; ९, ४; १०-१५,
३; १६, ३; ३; ७, ३, १^०; ७, १;
१६, १^०; ८, १, ५, ३, ४; वृ १, ४,
१४^०; ६, ३; २, १, २०^१; ३, ६^०;
५, १, २; ३, ९, १, २; २, ३^०; ४, १,
४^०; ५, ५, १^०; ५, १, १; १, ४, ४^०;
६, २, १, ५; मी १, १, ३; ३, ४, ८; ४,
७, १; मे ५, ३; ६^०; १०^०; मेदि ६, ३;
६^०; ८; ३, ३; ७, ७; १०^०; आठ ३;
मना १, २९^०; १, ३९^०; २, १-९^०;
१, ५९^०; २, २९^०; २, ९^०; २, ५९^०;
२, ७^०; ६, ८^०; ७, ८^०; ७, ९^०;
अशि १, १, १; २, १, ६; १, ६; ७;
१; १०; अडे: को सां^०; १, ६^०;
३, १; वृजा २, १, ५; ७, ७; ८, ६;
वृपू १, १; वृवृ ९, ९; १, ७^०; काला
२, २; गसा १, २, १; ३; निष७; सु
१, १०^०; २, ५; ते १, १; ३, ५०

४, ४०; ५, २०; २, ८; ७, ७; ६, ५;
३, ५; ५, ८; ५, ९; ७, ६^०; ८, ६; नाद
सां^०; २, ७; मवि ६, ०; १, ७, ०
१, ३, ६; आयो सां^०; नाप ३, २, १;
२, ४; ६, ३; ४, १०; निमा २, ३, २; सी
४; विवि २, २; १०; १, २; ३, २^०;
४, ३; ७^०; ५, २; ७, ४, ४^०; ८, २;
निर्वा सां^०; साध ३; सुत्र सां^०;
शां १, १, १^०; ७, ४, १; २, १; ३,
१^०; पै ४, १, ७; महा १, १; २, १;
३, ५; ४, ४, ५; १, ३, ३; ५, ८, ४;
१००; साही १; बोशि १, १, ९;
२, १, ६; अल ५, ७, २; पम १, २;
अक्ष सां^०; १, ७, ३, ३; भा ३, २, १;
कृ ३, ४; ३, ७; ग ४; जाप १, ६;
३, ९; १०^०; २, ९; ४, २; ६०; ६,
३, २; ९, १; ३; पं ३, २; गोव ३, ०;
म २, १, ६; वरा २, ३, ८^०; ३, २;
५, १, २; सी सां^०; सर सां^०;
३, १, २; व सां^०; १, ४; सु २, २,
७, ७; इ १, १; ७; १०; १, ६; १, ४;
१, ८; १, १; या २, २; सुता १, ४, ३; ६,
१, २; नापू २, १, ५; नाव १, १, २;
१, ४, ९^०; सुप ८, ४; १; पा ३, १;
४, ९; १०^०; ५, १, १; ३, ५; राधा
१, २; लां २, १, ३; १०; वि २, १;
३, ३; अ १, ४; १, ६; वटू ३, १, ४;
२, २; रशि सं ३, ०; शि १, २, ५, ५;
४, ४; ७, १००; स ३, ७, २; २, ३;
सिधि ३, ८, २; १^०; ३, ८, ३; १, ५;
वालि ४, ०, ३; १, ५; २०; गार
४, ०, ५; १, ३; १, ६; गा १, १; ३, ३;

गु ३, ०; व ४, ६, १; २, २, १^०; ४, ६, ४;
१, १, ९^०; चक्र १, १; १, १, १, १, १^०;
मम ३, २, २; ५, १, २; विम १, ७,
गो १, ०, ४; १, ६, २; ७; १, ७, १, ५;
१, ८, ६, ५; नयम्-नयम् वि २, १; गु
७, ७; न्यस्य ई १, ५; सुं ३, १,
६; वृ २, १, २, ०; ३, ६; ५, १, २;
५, १, ५, १, ९^०; मी १, ६, ३, २; ३, ५, ९^०;
वी ४, १, ७; न्या मना २, २, ८, ९^०;
सुभा ६; १, ५, २, ५, ७; गार
२, ५, २; १, ५; व ४, ६, ६; १, ५, ९^०;
न्या: छां ८, ३, १, १; न्याय तै
१, १, १, १; छां ४, ४, ५; वृ ५, १, ४,
४; कौ ३, १; सु २, २, १, ७; गा
१, १, १^०; न्याय छां ८, १, ६^०;
न्याय गौ
४, ७, ८; सुभा ९^०; न्याय पा ४,
५; १०; ५, ३; न्ये वृ २, ५, १, २;
३, ९, २, ३^०; ५, १, ४, ४; मैदि ७,
७; मना २, ३, १, ९^०; ७, ८, ९^०; ७, ९, ९^०;
ते ५, २, ९; ६, ७, ५; ७, ६; बोशि ४,
१, ६; गा १, १^०; न्येन सुं ३, १,
५; ६; छां ३, १, १, १; ६, १, ६, २;
७, १, ६, १^०; वृ १, ६, ३; ५, ५, १;
वृ १, ५, ५; मना २, ७, ८, ९^०; ७, ९, ९^०;
म ३, १, ०; अशि १, १, १; कौ १,
२; सुभा ३; १, ३; ते ५, ५, ८; गशु
२, ३, २; इ १, २, ५; १, ५, ८^०; सुता
१, ४, ३; ६, १, २; मय ३, १, ८.

साय-न्य-वृ २, ५, १, २^०.
१सत्य-क-^०-कम् ते २, ३, ६.
१सत्य-कानां^०-^०म^० १, ५, २;

a) यैर यद. b) तैसा १०, १४, ११ c) तैसा १०, ६३, ११ d) उपरोध संघिपार्यः द. (द्र. सत्य.
अकूर->र): a) तैसा ७, १, ११ f) तैसा ७, ११, ११ g) तैसा २, ७, ११ h) तैसा १०, १, ११ i) श्र १०,
१९०, ११ j) तैसा १०, ८, ११ k) तैसा १०, १२, ११ l) तैसा १०, १२, ११ m) तैसा १०, २, ८, ११ n) वृ. गपू.
पु ५, ४, ९, ० o) तैसा १०, १०, ११ p) तैसा १०, ६, २, ११ q) तैसा १०, ६, ३, ११ r) तैसा १०, १०, ११ s) 'सत्यम्'
इति अस्मा. t) तैसा ८, १, ८ u) गा ४, ०, १७ v) तैसा १०, २१, ११ w) श्र ९, ९, ४
x) 'त्यादी इति या. इ यनि. कोषः द. (द्र. वृ ५, १४, ४) y) तैसा १०, २, ४, ११ z) सत्य इति पा. १ यनि. व
'पूत' इति च शीषः द. (द्र. वृ ५, १४, ४) a') स' इति निधा. b') = १सत्य-। c') = अविशेष-।
d') कथित सफुति भवति ।

छां ४, ५, १; ६-८, २; ९, १; मै ५,
५; मैत्रि ६, ५; ३८; -मः प्र १, १;
५, १; छां ४, ४, १; २; ४; ५, २,
३; वृ ४, १, ६; ६, ३, १२; -माय
वृ ६, ३, ११; -मे छां ४, १०, १.

२सत्य-काम^०-

सत्यकाम-तस(>)मैत्रि ६, ३४^०.

३सत्य-काम^०- -मः छां ८, १, ५; ७,
१; ३; मैत्रि ७, ७; -०माः सुं १,
२, १; -मात् शां ३, १.

सत्य-क्षेत्र^०- -त्रे दत्ता १, १.

सत्य-गामिन्- -मिनः मै ४, ४, २^०;
मैत्रे १, ४, ४.

सत्य-चिद्-आत्मक- -कः ते ३,
५०^०.

सत्य-चिद्-घन- -नम् महा ४, ७०;
अथ ४, ३५; कर् ३४; रुह ४८;
वरा २, २०; ३, ६.

सत्य-जनन- -नम् वउ ४, ३३.

सत्य-जीव- -वः ते ५, १५.

१सत्य-ज्ञान^०- -नम् शारी ५^०.

२सत्य-ज्ञान^०-

सत्यज्ञान(न-आ)दि-लक्षण-
-०ण वि ४.

सत्य-ज्ञान-सुखा(ख-अ)द्वय- -यम्
अथ ४, २७; कर् १०.

सत्य-ज्ञाना(न-अ)द्वया(य-आ)-
रत्मक- -कम् कर् २२.

सत्य-ज्ञाना(न-आ)नन्द- -न्दम् पै
१, ३^१.

सत्य-ज्ञाना(न-आ)नन्द-पूर्णा-
लक्षण- -णम् वरा २, १६.

सत्य-ज्ञाना(न-आ)नन्दा(न्द-आ)-
दि-लक्षण- -णम् वरा २, १७.

सत्य-ज्ञाना(न-आ)नन्दा(न्द-अ)-
नन्त-स्वरूप- -यम् वसू २३.

सत्य-ता- -ता वृ ४, १, ४; १संन्या
२, ४६; ५६.

सत्य-स्व- -स्वम् ते ५, २२^१; अथ
१, १५; -त्वात् आवो ३०; -स्वेन
१आ ४.

सत्यात्व-भ्रम- -मः अथ १, १६.

१सत्य-धर्म^०-

सत्यधर्म-रत- -तः शां १, ५.

२सत्य-धर्म^०- -र्मः मैत्रि ६, ३५^५;
-ऽर्त्तां ई १५; वृ ५, १५, १;
मैत्रि ६, ३५.

सत्य-धृति- -तिः क १, २, ९.

सत्य-यद्- -दाय पा ४, १.

सत्य-य(र<)>रा- -रा महा ६, ४.

सत्य-परायण- -णः जाद ५, ३.

सत्य-पूत, ता- -तः अशि ७, ३; वृ
५, १२; महा ६, ८३; च २१: ९;
वउ ३१८: ५; स ३७९: २२;
-ताम् भव ५, १०.

सत्य-प्रज्ञान-लक्षण- -णम् महा ४,
८१; वरा २, १९.

सत्य-प्रति(शा<)>श- -शः पित्र १, ७.

सत्य-प्रतिष्ठा- -ष्ठायाम् योसू २, ३६.

सत्य-प्रसव- -वाय वृ ६, ४, १९.

सत्य-भो(म<)>मा^०- -मा कृ १५.

सत्य-भूय- -यम् वृ ५, ५, १.

सत्य-मार्गा(र्ग-अ)नुरक्ति- -क्तिः मं
१, १, ४.

सत्य-यज्ञ^०- -ज्ञः छां ५, ११, १;

-ज्ञम् छा ५, १३, १.

सत्य-रूप- -यम् पा ५, ३.

सत्य-लोक^०- -कः नाद ४; नाप ५,
१; १संन्या २, ५९; गार ४०५:
१६; -कम् वृ ५, १६; वृजा ८,
४; नाप २; त्रिवि ५, १२; वउ
५, १२; -काः सुबा १०; -केराउ

४, १; -केपु सुबा १०.

सत्यलोक-ज्ञान- -नम् शां १, ७,
५२.

सत्यलोक-वासिन्- -सिभिः
त्रिवि ५, १२.

सत्यलोक(क-आ)धिपत्य-
-यम् वपू १, ६.

सत्य-वचन- -नम् छां ३, १७, ४.

सत्य-वचस्- -चाः ते १, ९, १.

सत्य-वत् आवो १२; ३०.

सत्य-व(त<)>ती^०- -ती रुह ३४.

सत्यवती-सुत- -तः शु ३, २२.

सत्य-वसु^०-

सत्यवसु-संशक- -कान् नाप ४,
३८.

सत्य-वाच्- -वाक् नाप ६, १; ७.

सत्य-वादिन्- -दिनः रुजा २, १०.

सत्य-वाह^०- -हाय मु १, १, २.

सत्य-विज्ञान-मात्र- -त्रः ते ३, ४१.

सत्य-वर्त^०- -तः पित्र १, १; ६; १६.

सत्य-शौच-परिभ्रष्ट- -ष्टम् १संन्या
२, ५.

सत्य-संकल्प- -ल्पः छां ३, १४, २;

८, १, ५; ७, १; ३; मै २, ९; मैत्रि

२, ६; ७, ७; त्रिवि १, ११; -ल्पम्

को ३, २५^०.

सत्य-सत्य- -त्यम् अद्वै २१.

सत्य-संधान-मानस- -सः वरा ५,

५६.

सत्य-सिद्ध-योग- -गः निर्वा २९७:

१३.

सत्य-सुसंप्रदाय- -यः म ४९: १४.

सत्य-स्वरूप- -पः वृउ ५, २.

सत्या(त्य-आ)रत्मक- -कः ते ३, ४९.

सत्या(त्य-आ)रत्मन्- -रमा तै १, ६, २;

वृप ८५: ४.

a) कस. । b) °स्यगामिनः इति मै ४, ४, २ । c) उत. । d) °स्यकामतः इति मैत्रि ६, ३४ । °स्यकामिनः इति अथ्या. । e) °स्यं वि° इति अथ्या. । f) पस. । g) सम्प्यजज्ञा° इति अथ्या. । h) द्वस. । i) °न्द्वप° इति अथ्या. । j) सञ्जु सविस्त्वय° इति आन. । k) का ४०, १, १५ । l) =ऋषिबिरोध- । m) °ल्पः इति अथ्या., °स्यं सं° इति आन., शांशा ५, २ ।

सत्या(त्य-आ)दि- -द्वयः प्रस् ३, १, १९.

सत्यादि-रूप- -पम् सिदि ३८० : ९.

सत्यादि-वाच्य- -श्वैः तेषु, ६२.

सत्याद्या(दि-आ)सक- -कः अर्था ३०.

सत्या(त्य-आ)नन्द- -न्दः ते ३, ९; -न्दा राधा १, २, ५, १०.

सत्यानन्द-स्वरूप- -पः ते ३, ११.

सत्या(त्य-आ)नन्द-विद्य-आत्मक- -कः राउ ५, २; दसा १, १; ४.

सत्या(त्य-अ)नृत- -ते १संन्या २, १२.

सत्यानृतो(त-उ)पभोग(ग-अ)र्थ- -धाँव मैत्रि ७, ११९.

सत्या(त्य-अ)न्तरात्मन्- -न्मा पा ४, १०.

सत्या-प्रभा-पुञ्जिन्पु(नी-उ)पासं-ध्या-प्रज्ञा- -ज्ञाभिः त्रिता ४, २९.

सत्या(त्य-अ)भित्थ- -थः छाँ ६, १६, २.

सत्या(त्य-अ)सत्य- -न्यन् ते ६, ७१.

सत्यासत्या(त्य-आ)दि-हीन- -नः मैत्रि ३, २३.

सत्या(त्य-अ)स्तेया(य-अ)परिमह- -हान् भव ३, १६.

सत्यो(त्य-उ)धोग- -गाः पा ४, १०.

सत्यो(त्य-उ)पाधि-रहित- -तः त्रिवि १, ११.

२सत्य^{वि}-

२सत्य-क^{वि}- -कः व ४४५ : ११.

३सत्य^{वि}-

३सत्य-क^{वि}-

सालकि^{वि}- -किः गो १, १७.

१सत्यक- १-३सत्यकाम- १सत्य-द.

सत्यभामा- १सत्य-द.

सित्यमानसान् सुवा १.

सत्ययज्ञ- १सत्यवती- १सत्यवसु-

सत्यवाह- १सत्यप्रत- १सत्य-द.

सत्रा^{वि}

सत्रा-साह^{वि}- -साहम् आर्षे २, १८.

स^{वि}स्वच्- -स्वचम् १संन्या २, ९.

सत्वन्- -स्वातः नी २, ५९.

स^{वि}स्वर- -रम् १योत ११६; राउ ५, २८; योशि १, ४३; यो १, ९५; ६८; वरा ५, ६३.

√सद् > सीद्, सादि, सीदति १योत १०४; आबो १; सीदन्ति नी १, २९; सीदतु मना १, ११९.

स^{वि}सि मना २, १; यद्ये १, १६.

स(त्र) > स्र^{वि}- -स्रम् मना २, ८०; छाग २३ : १; १; ९; २४ : १२.

सत्र-मण्डप- -पम् शि २, १७.

सत्र-याग-पूर्व(ति-अ)नन्तर- -रम् १ नाप २.

सत्रा(त्र-अ)यण^{वि}- -णम् छाँ ८, ५, २.

१सदस्^{वि}- -दः नी २, ११९; -दसि कौ १, १.

सदस्य- -स्याः प्रा ३-४, १.

२सदस्य(पति)- -दसः मना १, ४९.

सघ्न^{वि}- -घ्न क १, २, १३.

सघ्न-

सघ्न-सुसल- -ले १संन्या २, ७३.

सादन^{वि}- -दु^{वि}नम् त्रिता ३, २८; व ४२९ : १०.

दु^{वि}सादन^{वि}- -न्यम् व ४४१ : २०; ४४७ : ४; ४५१ : १७; ४५४ : २३.

स^{वि}दक्षिण^{वि}- -णम् नाप ४, ३८; शि ७, ११; -णाः शु २९.

सदम्^{वि} श्रे ४, २२९.

सदा^{वि} क १, ३, ५-८; वे ३, १३; गो १, १२; कै १, १; हंछ; आर्षे १, १; वृजा ६, ११; यदु ५, २१९; मैत्रे २, ६; शि ६, १३१; सवोम्^{वि} अ २.

सदा-काल- -रुम् रुजा १, १९.

सदा-गति- -तिः अत्र ५, २५; २६.

सदा-चञ्चल-गात्र- -त्रः मैत्रे १, ४.

सदा-चिन्मात्र-विग्रह- -हः ते ३, ७.

सदा-जात- -तौ यो १, ७५.

सदा-दीप्ति^{वि}- -प्तिः मै २, २, ५; वापू २.

१सदा(दा-आ)नन्द, न्दा^{वि}- -न्दः सताष्ठ; अर्था ११; -न्दम् १, ५, २०; वृजा ८, ६; ते ३, २२; वउ ५, २९; -न्दा सार २८४ : १५९; -०न्दे तुल ७० : १५; -न्दे अर्था ९.

२सदानन्द^{वि}- -न्दः स ३७८ : १०.

सदानन्दो(न्द-उ)पनिषद्- -पदम् स ३७९ : २२.

a) कस. । b) =गोपिविशेष- । c) ०र्थः इति पा. ? यनि. शोधः द. (व. राती., संदि.; वैदु. ०र्थः इति सात.) । d) व्यु. ? =राक्षसविशेष- । e) व्यु. ? =पदुविशेष- । f) निसा. ? 'सघ्न-> स, मानस-> साव' इति द्विपदः शोधः द. (तु. श्रध्या.) । g) वैपरी वर । h) =६स । i) मा १६, ८ । j) वा. किवि. द. । k) तैस ३, ७, ११, १ । l) श्रे ८, ११, १० । m) तैआ १०, ६५, १ । n) √अस (अवि) > १सत्- + प्रायण (< √प्रायि < प्राय- ७, ११, १ । o) श्रे ८, ११, १० । p) श्रे १, १८, ६ । q) श्रे २, २३, १ । r) श्रे १, ९१, २० । < √त्रै इति शं., रामा., गोपा. । o) मा १३, ८ । p) श्रे १, २२, २० । q) श्रे २, २३, १ । r) श्रे १, ९१, २० । s) उप. =दक्षिणा- । t) श्रे १, ११५, ८ । u) श्रे १, २२, २० । v) ०दका^{वि} इति श्रध्या. । w) ग. गू. ११७३b । x) गू. (१२०५) सत्प. 'चिन्मात्रविग्रह-> -हम्' इत्यत्र यनि. शोधः कर्तव्यः । y) सद्गजा^{वि} इति श्रध्या. (उ. उम.) । z) =सखीविशेष- । a') =श्रेयिविशेष- ।

सदानन्द-मय- -ये वृत् ५, ४५।
सदानन्द-रसा(त-आ)स्वादन-
-नम् अथा २७।
सदानन्द-रूप- -पः काम १८;
-नेण अथा ६७।
सदानन्द-स्वरूप-दर्शन- -नम्
निर्वा २९८: २।

सदा-पुष्पित- -ताः सार २५४: १।
सदा(दा-अ)म्यास- -सेन नाद ४०।
सदा(दा-अ)मनस्क- -कम् आपू २।
सदा-मनोहारिन्- -रिणे सार
२६१: २।

सदा-मुक्त- -कम् ते ६, ७०।
सदा-रासकीडा-प्रकर-गुण-गान-
कोवि(द>)दा^१- -दा सार
२६३: १०।
सदा-वन-विहारिन्- -रिणे सार
२७७: १।

सदा-वृष^२- -धः व ४३७: १९४^३।
सदा-शिव^४- -०व हं २१; शु १,
११; -वः वृजा ७, ७; ८; मेने ३,
६; काला १५; ते ३, ५; ५१; ६,
३७; ६४; विद्या २, १६; स्क ७^५;
रार २, ३१; योशि १, १७८; ५,
५६^६; अथ्या ६९; जिता १, ३१;
३८; ४६; म १, ११^७; रुजा ३,
१; दत्ता १, २; ६; ३; वि १; शि
७, ४५; रया ८; हंयो २; २२;
तारा ८३: २५; अद्वैता ३; -वम्
वृजा ८, ६; वृपू ५, २०; १योत
११; जाद ६, ४७; ८, ६; वज ५,
२९; -नाम व ४६३: ९; वपू १, ३;
-योम्^८ मना २, ११^९; म २, १२।
सदाशिव-पुरुष- -पः गार
४०५: २०।

सदाशिवे(व-ई)भर-रुद्र-विष्णु-
महान्- -झाणः योचू ७२।
सदा-शुभ- -भम् सार २२१: १३।
सदा-संतोष- -पः आपू ६।
सदा(दा-ए)कता- -ता १संन्या २, ५७।
सदा(दा-ए)करस- -रूप- -पः ते
३, ७।

सदा(दा-उ)ज्वल, ला- -लः वृत् २,
११; वृत् १, १६; ५, ४२; -ला
विद्या ४।
सदा(दा-उ)दित, ता^१- -तम् नाद
१७; -ताम् जिता १, ७८; ८०;
२, २३; २५; -ते वृत् ५, ४५।

स^१-दाम- -मम् वृ २, २, १।
स^१-दामन् >)स्त्री^२- -स्त्री व ४४३:
२०४^३।
स^१-दासी-परिचारि(का>)क-
-कः शि ६, १६१।

स^१-दृश- -दाः ध्या ६४; योचू ३४;
राउ ५, २७; गी १६, १५; -नाम्
ध्या ६५; योचू ३५; कुं २, २३
३५; १०; गी ३, ३३; ४, १८;
-वाः गौ २, ६; ४, ३१; इ १२:
८; -शे गौ ४, ७९।
सदशी- -शी ध्या ६४; योचू
३४; गौ ११, १२।

सादृश्य- इयम् सांस् ५, १४
सिंहश्रयम्^४ नाद ५६।
स^१-देव- -वाः वृ ३, ९, १९^५।
स^१-देह- -हः अज ५, १८; -हाः महा
५, ४०।
सदेहा(ह-अ)देह- -हयोः अज १,
२५।
स^१-दोष- -पम् गौ १८, ४८।
सघन- /सद् घ.

सघस्(>):^१ मना १, ४४^२; ते १, १९;
नाद ४०; महा २, १७; अच १६;
दे २१; म १, ५^३; रुजा २, १८;
वरा २, १५; कलि ३^४।
सघः-कुमारिका-रूप- -यैः ते ६,
७९।

सघः-संत्यक्त-चापल- -लः नाद
४३^५।
सघो-जात, ता^१- -तः महा ५,
१६०^२; नापू १, १०; सिसि ३८२:
१०; -तम् मना २, १७^३; म १,
५४^४; पं १^५; वपं ३११: १४^६; -ता
ते ६, ९१; -तात् वृजा १, १; सिसि
३८१: ७; -ताय मना २, १७^७;

शु २, ५; -तेन वृजा ३, ३२; ४,
१; -तैः वृत् ६, ४०^८।
सघोजात-शिशु-ज्ञान- -नम्
अज ३, १६।
सघोजाता(त-आ)दि- -दिभिः
वि १०; -दीन् सिसि ३८१: २४।
सघोजातादि-पञ्च-प्रह-
मन्त्र- -त्रैः वृजा ७, १; काला
६^९; जावा १५।

सघोजातादि-पूर्वक- -कम्^१
पं २१
सघो(घत्-उ)स्वप्न-पञ्च-महावातक-
-कात् सू ३०।
सघो-दर्शन- -नम् सार २४४: ६;
२४८: १०।
सघो-मुक्त- -क्ताः वरा ४, ३४।
सघो-मुक्ति-प्रद- -दः वरा ४, ४२।

सध^१-
सध-स्थ- -स्थम् नापू ४, ५४^२;
-ऽ^३स्थात् मना २, १; व ४६१:
१४।

a) वैपरी वद. । b) छ ४, ३१, १। c) °दाय्युतः इति अख्या. । d) तु. गप. पृ १७३b । e) तैश्चा १०,
४०, १। f) उप. = १उदित- । g) = ६स । h) = अमितन्विशेष- । i) तैश्चा ४, २३, १। j) = ५स । k) पा. ? अयि
दृश्यम् इति द्विपदः शोधः द. । l) अव्य. वैपरी वद. । m) मा ३२, १२ । n) °लम् इति अख्या. । o) विप. वा
नाप. (=शिव-) वा । p) °ताम् इति निसा. ? यनि. च अम् इति च द्विपदः शोधः द. । q) तैश्चा १०, ४३, १।
r) = सघोजातादिमन्त्रैः । s) सघादिपञ्च इति J.C. । t) वा. किवि. द. । u) छ १, १५४, १। v) शौ ७, ६५, १।

सधनुश्शूलकतर्जनी-

३-धनुश्शूलक-तर्जनी-
-नीः व ४२६: १०.

स-धनुष्-पाणि- -गिना रापू ४,
१०.

स-धर्म-
साधर्म्यं- -र्म्यम् सांस् १, १२८;
गी १४, २; -र्म्यात् सांका २७.

स-धूम- -भे शि ४, ४८.
√सन्, सनेम् मना २, ५०५^६.
सनि- -नये वृ २, ५, १६५^६; -निम्
मना १, ४५^६.

सनक-
सनक-सनन्दन-कविल-नारदा-
(२-आ)दि- -मह्य-निष्ठ- -ष्टाः
म ४९: ८.

सनक-सनन्दन-सनकुमार-सनत्-
सुजात- -तान् नाप ४, २८^६.
सनक-सनन्दन-सनसुजात-सनष्-
कुमार-सनातन-नारद-सुम्बुरू-
समन्वान्त-आ)दि- -दयः नापू
६, ७.

सनका(क-आ)दि- -दयः तुल ७१:
२२; तार २१९:१; २४९:२०;
-दिना तार २५३: ६; -दिभिः
नापू ४, २५.

सनकादि-महापोसि-वेद-
विद्- -विभिः वपू १, ५.
सनकादि-मुनी(नि-ई)हित-
-तम् गौ २, १०.

सनका(क-आ)घ- -घाः ते १, ४७;
तार १, २, २-५, १; -घैः मु १, १, २.
सनगा- -नाः, -गाव वृ २, ६, ३; ४,
६, ३.

सनत् नाउ. औप. द्र.
सनत्-कुमार- -रः छां ७, २६, २;
हं २^६; अ १; वृजा ७, ८; काला
३; ११; रुजा ३, १; जावा १९;
सूता १, -२, १; ऊ ६३: १; नापू
१, १; तारा ८४: ७; -रम् छां ७,
१, १; गार ४०७: १२.

सनत्-सुजात-
सनत्सुजाता(त-आ)दि-सना-
तना(न-आ)घ- -घैः रा १९.

सनन्दन-
सनन्दना(न-आ)चार्य- -र्यः सांस्
६, ६९.

स-नयक- -कम् गर्भ ५^म.
सना-
सना-तन- -नः क२, ३, १; मैत्रे ३,
११; ते ३, ३५; ५, ८; ६१; ६२;
मवि १०^५; रङ्ग १३; भ १, ८;
गोउ ३५; नापू ५, २८; नाउ १,
२१; भव २, ४०; गौ २, २४; ८,
२०; ११, १८; १५, ७; -नम् क
१, ३, १६; २, २, ६; मै ४, ४, ३;
मैत्रि ६, ३४; मैत्रे १, ४, ५; कै १,
९; गर्भ ४^०; ते ३, ३२; ६, ३१;
नाप ३, १७; ५१; त्रिवि ५, १२;
शां ३, ४; पै १, ३; महा ४,
७१; ५, ५०; अक्ष ४, २९; क४
२३; दृढ २६; ३७; शा ३; ५;
३०; ३३; गौ ४, ११; ७, १०;
-नाः शि १, ५; गौ १, ४०; -नीः
भव २, ६१.

सनातनी- -नी गार ३, ११;
-नीम् अक्ष १, २^०; व ४३३-४.

सनात् मना २, २१; व ४६१: १६.
सनातन- -नः, -नाव वृ २, ६, २-
स-नामधेय- -यः कुं ५.

सनात्- -रुः, -रोः वृ २, ६, ३; ४, ६, २.
स-नाल- -लम् त्रिमा २, ७.

स-निगर्भ- -भेम् त्रिता २, ५९.
स-निधि- -धीनाम् वउ २, ७.

स-निमित्त-
सनिमित्त-स्व- -स्वम् गौ ४, २४; २५
स-निर्वाण- -णम् गौ ३, ४७.

सनिष्ठा^१ द १५.
स-नी(ट>)ल- -लाः व ४३७:
११५^०.

सं-तत- नाउ. द.
सं/तन्

सं-तत- -तम् मवि २०; वृउ ७,
९; काल २०; ते १, २३; ६, ६५;
६६; नाद २१; घ्या ५४; ७४;
नापू ५, ३४; त्रिमा २, २६; २९;
योच् २२; ४७; द ८; रा ३६;
रार २, ३८; शां १, ७, १८; ४५;
३, ४; महा ४, ५; १९; २६; २भव
३३७: ४; योशि १, ७२; ११५;
६, ४७; अक्ष ४, ४८; अक्षि ५;
६; मावि १०; पायू २, २०; २१;
दे ३; यौ १, ५०; जाद ६, २५;
कृ ७, गोपू २९; ३३; मु २, २,
२९; ६ १५; ११; सु २९४; २२;
शि १, २१; ३, १३; ६, १६२; ७,
२; १५; ११८; गौ ३, १९; ६, १०;
८, १४; ९, १४; १२, १४; १७,
२४; १८, ५७; अक्ष ३; त्रिम्
५, ४; मवि २०.

a) =६त। b) =५व। c) 'मनेयम्' इत्यत्र घमो मन् आदेशः इति भा. (तेभा.)। d) रेभा १, २, १.
१५। e) श्र १, ११६, १२। f) श्र १, १८, ६। g) स्तु। =शुचिबिधेय-। h) *नवनागन्तव्यं इति ऋष्या।
i) =सनात्। j) =शुचिबिधेय-। k) 'समसुजातः' इति ऋष्या। l) स्तु। =घावाःईशिव-। m) 'नवनागुजातम्'
इति ऋष्या। n) अम्. वे १ व ३। o) 'महेष्वरम्' इति ऋष्या. ऋष्या.। p) *ना इति ऋष्या. सं.। q) *नाम्
इति ऋष्या.। r) श्र ८, ११, १०। s) *निर्ण इति ऋष्या. सं.। t) निगा. 'शा त्रिमा' इति शिवः गोपः द.
(गु. ऋष्या.)। u) श्र १०, १०, ११। v) राजो वा म-सोः (तारा १, १, १४४)। w) ३१ ग२ व. सं.। x) *तम् इति ऋष्या. सं.।

सतत-नम्र- -अः शि ७, ६७.
 सतत-युक्त- -काः गी १२, १;
 -कानाम् गी १०, १०.
 सं-तत, सा- -ताम् मना २, १३,
 २५^b; कौ २, ५; त्रिमा २, ११९;
 त्रिवि ७, ११; ५०; महा १, ११५^c;
 योशि २, १०; जाद १, १६; तौ
 १, १; -ता प्र २, १२; -ताः ऐ ४,
 ३; मना २, १३, २५^b; -तानि सुं
 १, २, १.
 संतत-ज्वर- -रम् व ४३३; २१.
 संतत-भाव- -स्यः आबो ९^d.
 संतत-सौख्य-हेतु- -सुम् हे १४.
 संतता(त-अ)क्षि-कमण्डलु-
 -लुम्(१लुः^e) निर्वा २९८; ११.
 संतता(त-अ)भ्यास-योग-
 संतताभ्यासवोग-तस(>):
 १योत ७५; ८०; योशि १, १२५.
 संतता(त-अ)श्रुत-पुण्य-श्रुति-
 -दिभिः त्रिवि ६, २३; सि ६, ३४.
 सं-तति- -तिः भव ३, २९; -स्यै ऐ
 ४, ३.
 सं-तान- -नः तै १, २, १.
 संतान-ज- -जा. १संन्या २, ८.
 सं/तप्, > सापि, संतापयति मना २,
 १३, २५^b; नि ४६.
 सं-तप- -पन् वृपू २, ११५^f.
 सं-त(त>)सा- -सा योशि १, ८५;
 यो १, ४५; ६६.
 सं-ताप-
 संताप-वेदि- -दिभिः शि ७,
 ८५.
 सं-तापन-
 संतापन-बाण- -णाय व
 ४५७; २.

सं-तमस- -से पित्र १, ४.
 सं/तुप्, > तोषि, संतुष्ट^g अल्ल २^h.
 सं-तुष्ट- -ष्टः महा ४, ३६; ३७; वि
 २; गी ३, १७; १२, १४; १९.
 सं-तुष्टि- -ष्टिः त्रिमा २, ३३.
 सं-तोष- -व्यः गर्भे ५ⁱ; तेषु, ७९; नाप
 ३, २१; शा १, २५ⁱ; महा ४, २;
 घारी १; -पम् भेदि ६, २९; जाद
 २, १; ५; ६; वरा ५, १३; शि ७,
 १००; -पात् योम् २, ४२; -वैः
 शि १, २६^j.
 संतोषोपलभसमस्तगुण- -णः
 अहं २५.
 संतोष-संयुत- -तः त्रिवि २८.
 संतोष-सुखा(ख-आ)सन- -नः
 ते ५, ६४.
 संतोषा(प-अ)श्रुत-पान- -नेन
 महा ४, ३५.
 संतोषा(प-अ)मोद-मधु(र>)-
 रा- -रा अदि २७.
 सं-तोष्य तारा ८३; २३.
 सं/तृद्
 सं-तृष्ण, णगा- -णगा, णगानि छां २,
 २३, ३.
 सं/तृप्, > तर्पि
 सं-तर्पयित्वा^k शि ६, १९७.
 सं-तर्प्य सुमु ९; १६; १८; वउ ६,
 २२.
 सं-तृप्त- -प्तः अल्ल ४, ३; वरा ३, २८.
 सं-तृप्ति- -प्तिः १संन्या २, ४६.
 सं/तृ, > तारि, संतरति नाप ६, २५;
 संतरेयम् कलि १.
 संतरिष्यसि गी ४, ३६.
 संतारयति अ २, अता ३; राज
 १, २.

सं/त्यज्, संत्यजति महा ६, ३५;
 संत्यजते ६, १०३; संत्यजेत् वृजा
 ३, २४; नाप ६, ३५; यो ३, ३;
 ४; शि ७, ६२.
 संत्यज्यते अल्ल १, ४४.
 सं-त्यक्त, क्ता- -क्तम् अल्ल १, ४५;
 -क्तया महा ५, ९४; -क्ता महा २,
 ५३.
 संत्यक्त-वास(ना>)न- -नाप सु
 २, २, २१.
 सं-त्यक्त्वा^l नाद ५४; कुं ७^m.
 सं-त्यजत्- -जतः महा ५, ६२; -जत्
 अथ्या १८.
 सं-त्यज्य महा ३, १; ५, ९६; ६, २०;
 ५२; तुअ ९; अल्ल १, ४६; ४,
 ७४; ५, ३४; ६९; शि ७, १२७.
 सं/द्वै, संश्रायते दे १८.
 सं/दंश
 सं-दश्य कुं १८ⁿ.
 सं-दंशा^o - -शम् शि ६, २३२.
 सं-दधान- सं/धा द.
 सं-दपण- सं/दप द.
 सं-दर्शन- सं/दश द.
 सं/दह, संदहति वृ५, १४, ८; गा २८.
 सं-दग्धा^p सुवा २.
 सं/दा(दानि), संददातु मना २, ६३^q;
 ६४^q.
 सं/दिह
 सं-दिग्ध, ग्धा- -ग्धः नाप ४, ३६;
 -ग्धायाम् सु २, २, ९.
 सं-देह^r - -हः छां ५, १५, २^r;
 १८, २.
 सं-देह^s - -हः ते ६, ३९; १०७;
 महा ५, १८६; योशि ६, २६; अल्ल
 ५, ९०; -हम् ते ३, ७४.

a) क्वचित् वा. क्वि. द. । b) तैश्चा १०, ११, २ । c) तस्यै इति निशा, अथ्या. पा. १ यनि. शोधः द.
 (दु. तैश्चा १०, ११, २) । d) तः भा^o इति अथ्या. । e) पा. १ यनि. शोधः द. । f) तैश्चा ३, १०, १, २ । g) दु. गप-
 वृष्ट १० p । h) लोटि मपु ३ । i) एवम् इति अथ्या. । j) उपमानाभ्यवसायनिष्पन्नं बहुत्वं द. । k) वा १ । l) पा ७, १,
 ३८ । m) 'दयत्त्वा' इति अथ्या. । n) 'दश्य इति अथ्या. । o) पा. १ (दु. तैश्चा १०, ६३) यनि. शोधः द. ।
 p) तैश्चा १०, ६४ । q) =शरीर- । r) =संशय- ।

सं-देह^{१०} - हे वृ ४, ४, १३.
 सं/दीप्य-दीप्यन्ते सार २३७ : ७.
 सं-दीपन^{११} -
 संदीपन-भाण- -गाय व
 ४५७ : १.
 सं-वीस- -सम् वृ ६, ३, ४.
 सं/दृप्-
 सं-दृषण- -गाय पा ३, ३.
 सं/दृम्-
 सं-दृष्य- -ध्वानि वृ ३, ७, १; २.
 सं/दृश्-संदृश्यते त्रिवि १, ११^१; सार
 २५७ : १०; भव २, ५६; सं-
 दृश्यन्ते गी ११, २७.
 सं-दशान-
 संदशाना(न-श्च)भाव- -वात् महा
 ५, १७०.
 सं-दृश्- -दशो क २, ३, ९; खे ४,
 २०; मना १, ३; त्रिवि ६, १४;
 पं १९; यु ६३.
 सं-दृष्य राप् ४, १९.
 सं-दृश्य- सं/दिह् द.
 सं/धा, संघत्ते वृ ३, १४; १संन्या १,
 १^१; कथु १, १^१; संदधाति छा
 ४, १७, ४-६; संदधामि ऐ को
 नाद आचो निर्वा सुद्र अक्ष सौ सर
 व शां^{१२}; संघत्ताम् अ २; स-
 मघत्त पा ८, ८; संदध्यात् छां ४,
 १७, ७५^१; वृत् ३, ९; ४, ४; निर
 १, १.
 संधीयते ते १, ३, ४.
 सं-दि(त>)वा^{१३} - -ता ग ८; -तायाः
 ते १, ३, १; -तायाम् इ १२ :
 १८; यु ५.
 संदिवा(त-त्वा)मन्- -मनाम्
 ऊं ६६.

संदिवा-मन्त्र-मन्त्रि(त>)वा-
 -ताम् वृजा ४, १.
 सं-दधान- -नः पा ३, ८; ९; ४, ६;
 ५, ५; -नाय पा ५, ३.
 सं-(ध>)धा- -धाः कौ ३, १.
 सं-धात्- -ता मना २, ५९^{१३}.
 सं-धान- -नम् तै १, ३, २-३^१; ४;
 पत्र २; ग ८.
 सं-धाय वृ ६, ४, ९-११; २१; नाद
 ३१; रात २, ७२.
 सं-धि- -धिः तै १, ३, १; २; ३^१; ४;
 छां १, ३, ३; जा २^१; ते ६, २४^१;
 राउ ३, १^१; १संन्या २, ८७; ग
 ८; -धिमू क १, १, १७; जा २;
 आद २; अना ३२; त्रिवि ६, २३;
 राउ ३, १; जाद ४, ४२; ६, ३९;
 -धी मैत्रे २, १७; त्रिवि ६, १९;
 -धी-धी वि १७.
 सं/धि, संघयति वृ १^१; सं-
 घयीत् सुं २, २, ३^१; संघयेत्
 त्रिवि ७; अवि ७.
 संधि(र>)मी- -नी म ३, १५;
 -नीम् वृजा ३, १५^{१३}!
 संधि-शत- -ताम् गर्भे ५; निर
 २, १.
 संधि-संधि- -धिषु ध्या ९३,
 १०.
 संसंध्य- -स्यम् वृ ४, १, ९; -स्ये
 वृ ४, ३, ९; मन् ३, २, १.
 संसंध्या^{१४} - -स्ययोः नाप
 ४, १९; शां १, ७, ४६; जाद
 ६, २१; -स्य्या पदं ५; म ३, १५;
 -स्य्याः १योत् ३३४; २योत् १, ६;
 वरं ३१२ : २०; सि ७, ५; ५;
 -स्य्यासु गोप् १८; -स्ये गार

४०८ : ७.
 संध्या-काल- -लेषु
 त्रिमा २, १०९; शां १, ७, ४४.
 संध्या-त्रय- -ये सि
 ५, १७.
 संध्या-दिन-रात्रि-
 -त्रयः अक्ष ४, २२.
 संध्या-द्वय- -ये वृजा
 ४, ५.
 संध्य-वत् मू ४, ४, १३.
 संध्या(धि-श्च)क्षर- -रम् २प्र३५ :
 १६.
 सं-धु- -धुः पा ४, ६.
 संधु-क्षण- -गानाम् पा ४, ६.
 सं-धुस्- -धुषे पा ३, ७.
 १सं-हित, ता- -तः शु ३, २२; नाप
 ६, २३; राप् ४, ७; ऊं ७^१;
 गोउ २८; सि २, ३१; -तायाः
 सार २३४ : १९.
 २सं-हित^{१५} - -तः शां १, ७, १४^१;
 योशि १, ८८; यो १, २०; -सम्
 शां १, ७, १४; यो १, २०.
 सहित-कुम्भक- -कः यो १,
 २१.
 सं/धृ>घारि, संघारयेत् वृ ५^१;
 योशि ५, ५०; ६, ७.
 सं-घार्य- -र्यम् म ३, ४^१.
 सं/घ्या>धम्, सम्^{१६} घमति ये
 ३, ३५^१.
 सं/घ्यै>घ्या
 संसं-(य>)घ्या^{१७} - -घ्या म ३, १४;
 रो ४, १२; पाप् २, २; गार ४०६;
 १५; ११; १९; २१; -घ्याम् जा २;
 वृजा ७, ८; मैत्रे २, ११; १४;
 राउ ३, १; म २, २; सि ७, १३.

a) =शरीर- । 'संदेहे' इति आन. संदि, J.C. । b) वृ. गृ. ४४१०p । c) विरसं इति घ्या. ।
 d) तेषा १०, १, १ । e) तेषा २, ७, १ । f) जैउ ३, ४, ३, ३ । g) 'सहयेऽर्थिनाम्' इति घ्या. । h) तेषा १०,
 १३, १ । i) पा। 'संध्या' इति शोषः द. । j) 'संधय' इति आन. । k) 'संधीयते' इति आन. संदि. । l) =पुष्यन्ती-
 (=गो-) । m) =हासविशेष- । n) समो वा म-श्लेषः (पात् ६, १, १४v) । o) 'आसक्तः' इति निता. इति. शोषः
 द. (वृ. घस्या.) । p) =पुम्भकवाणायाम-भेद- । q) संघा इति आन. । r) 'घार्यम्' इति निता. । s) म १०, ८१, १ ।

संध्य- -प्यम् भव १, ५८.
 संध्या-कर्मन्- -र्भं वि २.
 संध्या-क्रिया- -या पाशु १,
 १८.
 संध्या(ध्या-अ)भिवन्दन- -नम्
 व ३, १४.
 संध्या-विद्या- -ये मना २,
 ३४९^b.
 संध्यो(ध्या-उ)पासन-काल-
 संस्कार- -रैः सार २३१:१७.
 सं/नम्, ९^cसम्...नमति मना १,
 ३; त्रिवि ६, १३; क १३; रविासं
 २६; संनमन्ते कौ २, ६.
 सं-नत-
 संनता(त-अ)ङ्- -ङ्गः भ २, २७.
 सं-नति^d- -तिः सौ १, ३.
 सं-नय- -यम् व १, ५, १७.
 सं-नि/कृप्
 संनि-कर्म- -र्पात् नाप ३, ५८.
 संनि-कृष्य(र>)न्ती- -न्ती सार
 २६५:१८.
 सं-नि/गच्छ, संनिगच्छति व २,
 १, ९.
 सं-नि/धा, संनिधत्ते प्र १, ६^e; ३, ४.
 संनि-धान- -नात् थोशि २, १०;
 -नेन रा ४२४:१६.
 संनि-घाय सुं २, २, ७; ध्या ६९;
 योच ४०; त्रिता १, ८०.
 संनि-धि-
 सांनिध्य- -प्यम् वि २०;
 शि ७, ३^f; -ध्वे नाप ३, ६८.
 सांनिध्य-वशा-
 सांनिध्यवशा-तस्
 (>) विद्या १.
 संनिधि-मात्र-
 संनिधिमात्र-तस्(>) महा
 ४, १४.

संनि-हित- -तः राउ ३, ५; -तम्
 सुं २, २, १.
 सं-नि/पत्
 संनि-पात^g-
 सांनिपातिक^h- -कम् व ४३३:
 २०.
 सं-नि/यम्(यगने)
 संनि-यम्य नाप ३, ३६; गी १२, ५.
 सं-नि/युज्, संनियुक्ते गु ७२.
 सं-नि/रुष्
 संनि-रुद्- -द्ः धे ४, ९; नाप ५,
 २७; गुण ४; -द्म् ऋषि ४; अवि ४.
 संनि-रुष्य श्वेता २, ८; योच १०७;
 त्रिता ५, ४ⁱ.
 सं-नि/चिश्, संनिविश्वताम् सर ३,
 ४^j.
 संनि-विष्ट, ष्टा- -ष्टः क २, ३, १७; धे
 ३, १३; ४, १७; ६, १५; मै ५,
 ७^k; मैत्रि ६, ७; शां ३, १; गी
 १५, १५; -ष्टा गु ६०; -ष्टाः त्रि १.
 संनि-वेश- -शम् महा ५, १५५.
 संनि-वेश्य भ २, २८; भव ३, २५.
 सं/नी, संनयति व १.
 सं-नीय व ६, ३, १; ४, २४; २५.
 सं-न्य(नि/अ)स्(त्विपणे), संन्यसति
 शा ३०; कथु १, १^l; संन्यसेत्
 जा ५; मैत्रे २, १९; २०; नाप
 ३, ५; ९; ११; १४; १६; २३; पप
 ४१८:१७; भव १, १.
 संन्यस्यति नाप ५, १^m; १संन्या
 १, १ⁿ; २, १३^o.
 संन्य(नि-अ)सन्^o- -नात् भव १,
 ५२; गी ३, ४.
 संन्य(नि-अ)स्त- -स्तः नाप ३, ३;
 ५, १; १संन्या १, १^p; २, १३;
 कुं ५^q; कथु १, १^r; -स्तम् आह
 ३^s; नाप ४, ३८^t; १संन्या २,

६; ७; पप ४१८:२५; २६; या
 १, १; शा ३२; -स्ताः नाप ३,
 १; १संन्या २, ३.
 संन्यस्त-गुप्- -प्याः शा ११.
 संन्यस्त-सर्वसंकल्प- -रूपः
 भव ५, ४७.
 संन्यस्त-सर्वै(र्व-इ)न्द्रिय-
 वर्गै- -र्गैः सं ३, २, १.
 संन्य(नि-अ)स्तम् नाप २; १संन्या
 २, १^u; ३; पत्र ३, १३^v.
 संन्य(नि-अ)स्य पहं १; नाप ३,
 ८६^w; ४, ३८; ५, १^x; तुभ ८;
 १संन्या २, १३; कुं ९; कठ १;
 कथु ३, १; गी ३, ३०; ५, १३;
 १२, ६; १८, ५७.
 संन्या(नि-अ)स^o- -सः मैत्रे २,
 १७^y; नाप ३, १; ८; ५, १^z; ६, २०;
 १संन्या २, १३; पप ४१८:२५;
 कठ १; लि ३१०:५; गुणो
 ४२१:८; पी ४२२:२०; कथु
 १, १; २, ३; गी ५, २; ६; १८, ७;
 -सम् जा ४; नाप ३, ४; १२;
 निर्वा २९८:१६; १संन्या २,
 २; ४-६; कुं ६; या १, १; गी
 ५, १; ६, २; १८, २; -सस्य गी
 १८, १; -साः, -सात् नाप ५, १;
 -से मैत्रे २, १८; नाप ३, ५;
 १संन्या २, १; -सेन जा ६; नाप
 ३, ८६; मि १६; पप ४१९:१९;
 या २, १; गी १८, ४९.
 संन्यास-काल- -ले नाप ५, १.
 संन्यास-ग्रहण- -णम् म ४८:
 ११; १६; २१; ४२:६; १२; २०.
 संन्यास-धर्म- -र्मान् सार
 २३६:३.
 संन्यास-भेद- -दैः नाप ५, १.
 संन्यास-योग- -सुं गाल सुं ३, २,

a) वैतु. उत्र. पूष. <सं/धा इति। b) तैश्चाद्या १०, ३४। c) 'सुम्...धमति' इति श्रु १०, ८१, ३।
 d) =राफविशेष-। e) बस. (वैतु. सं. प्रष्ट. अन्वयायाकरुकाः)। f) °रुद्म् इति अज्या। g) °वे इति अज्या।
 h) °निष्ठाः इति पा.१ वनि. शोचः द्र. (तु. नाउ.)। i) तैश्चा १०, १०, ३।

६; के १,५; मना २,१२,३; भव
 ३, ३३; मोन १ संन्या २, ८९.
 संन्यासयोग-मुक्ता(क-आ)-
 एम्- नमा भव ५, ४७; गी
 ९, ३८.
 संन्याम-लक्षण- नाम् नाप ३,
 १६; या १, १.
 संन्याम-विग्र- ३- -तां
 १ संन्या २, २.
 संन्याम-विधि- -धि: नाप ३, १;
 ५, १; -धिम् नाप २; ४, ३८.
 संन्यामा(स-म)धिकारि-
 -रिणम्, -री नाप ३, १.
 संन्यामा(स-म)नन्तर- -रम्
 मैत्रे २, ११.
 संन्यामा(स-म)ई- -दां: नाप
 ३, १; १ संन्या २, ३.
 संन्यासो(स-उ)पनिपद-
 -पदम् १ संन्या १, १.
 संन्या(नि-आ)सिद्ध- -सिन: १ संन्या
 २, ५९; या २, २; गार २९, १; १८;
 -सिनम् १ संन्या २, ६; -सिनाम्
 नाप ५, १; भव १, ५८; गी १८,
 १२; स्त्री मैत्रि ६, १०; जा ५;
 नि १, २; ५२; ५५; नाप १; मं
 ५, १, ५; या २, १; नाउ ३, १३;
 सार २९०:१०; गुणो ४२१:४;
 वी ४२२: १९; तारा ८३: ७;
 गी ६, १.
 संन्यासि-योगिन्- -गिनौ महा
 ६, ४८.
 १ संन्यासाप्रसवैकभू: अलि २८.
 स-पङ्क्ति- -रुक्ति: इ १३: १३.
 स-पञ्चन- -न: रापू ५, ९.
 सपत्न- -स: वृ १, ५, १२; -सा: तै
 ३, १०, ४; ज्ञान् मना २, ७९, ६.

ग्या ३, १०^६; गी ११, ३४.
 सापसा(स-म)तिरवाधिन्- -धिनी
 वृ ३, ८, २.
 ✓सपर>सपर
 सप(यं)पां- -पां गु २५: ७९.
 स-परशु-हरिण- -णम् ६५.
 स-परा(ग)भा- -नाम् शिता १,
 ७७.
 स-परा(र-म)पर-रहस्य- -स्यम्
 शिता २, ६३.
 स-परिवार, रा- -रव ४३८: १२;
 ४३९: ९; १९; ४४०: ६; १७;
 ४४१: ४; १५; ४४२: १; १३;
 २३; ४४३: ११; १: ४४४: २;
 १२; २२; ४४५: ११; २०; ४४६:
 ९; १९; ४४७: ७; १८; ४४८:
 ६; १८; -रम् वृ ३, ९; -राम् शि
 ६, १२२.
 सपरिवार-क- -कस्य व ४३८: १३;
 २३; ४३९: १०; २०; ४४०: ७;
 १७; ४४१: ५, १५; ४४२: ३;
 १४; ४४३: १; १०; ४४४: ५;
 १५; ४४५: २; १३; २३; ४४६:
 १२; २२; ४४७: १०; २१; ४४८:
 ९; २०; ४४९: १६; २३; ४५०:
 ७; १४; २१; ४५१: ७; १४; २१;
 ४५२: ६; १४; २९.
 स-परिधय- -य: वृ ६, ४, २३.
 स-पर्यत, ता- -सम् शिता १, ९९;
 -साम् वृ १, ३; वृ १, ६.
 स-पात्र- -त्रम् कौ २, १५.
 स-पाद-
 सपाद-कोटि-योजन-प्रमाण-
 -णम् शिवि ६, ४.
 स-पाणि-क- -कम् वृ २, २.
 स-पिष्ट- -ष्टान् मना २, ६३^६.

स-पुष्पा(ण-म)क्षत-तोय- -वेन
 शि ६, ७६.
 सतन्- -स मुं १, २, ४; २, १, ८; वृ १,
 ५, १; २; २, २, १-३; गर्भ ५; मना
 २, १२, १^६; २^६; वृ ४, १५,
 १५; वृ ४, २६; वृ ४, १; नाप
 ४, ३४; मुद्र १, ६^६; रापू ४, २२;
 -स स मुं २, १, ८; -सनि: शी
 ५३: १९; २०; शि ७, १४०; तां
 ३, ७३; सांका ६३.
 सत-श्रयि- -पय: अज्ञा २, ८^१; ९^१.
 सत-क- -कम् वृ ४, १, १८.
 सत-कला-
 सतकला-मय- -यम् चक ८.
 सत-कोटि-परि-सहस्र-परिमित-
 -ता: राधा १, ८.
 सत-कोटि-महामन्त्र- -न्त्रम् ते ३,
 ७३.
 सत-कोटि-योजन-विस्तीर्ण-
 -णं: राधा १, ११.
 सत-चक्र- -क्रे प्र १, ११.
 सत-चत्वारिंशद्- -शान्ति: रा २,
 ९२.
 सतचत्वारिंश- -शो अत् ५.
 सतचत्वारिंशद्-वर्ण-गुणा-
 (ण-अ)न्त- -न्त: रापू ४, ६४^०.
 सतचत्वारिंशद्-मन्त्र- -न्त्रै:
 राउ ५, १.
 सत-जन्म-कृत- -तावृ इ १८: २२.
 सत-जन्मान्(म-अ)जित- -तम्
 शिवा २, १४८.
 सतति- -स्याम् सांका ७२.
 सत-त्रिशद्-
 सतशिश- -शो अत् ५.
 सत-द्वय- -ना सांका ४९; -शान्ति:
 राशी ५.

a) न्यासे इति श्रव्या. । b) निसा. १ 'अन्यासां प्रसवैकभू-> -भू' इति शोध: द्र. (द्र. श्रव्या). ।
 c) = ५स । d) = ६स । e) 'ससवन्नजः' इति श्रान्. । f) = शत्रु- । वैश १ यद्र. । g) तैवा १०, ६३, १ । h) तैवा ३,
 ७, ६, २१ । i) पा ३, १, २० । j) वैशाखा १०, ६३ । k) वैश १ यद्र. । l) तैवा १०, १०, १^१ । m) श्र ४, ५, ३ ।
 n) श्र १०, ९०, १५ । o) नदणै: गुणा^० इति श्रान्. ।

सप्तदश- -शः मैत्रि ७, ३; छाग
२३: १३; २४: १५; -शाम् २ प्र
३२: १५; गार ४०७: ८; १४.
-शो अक्ष ५.

सप्तदशी- -शीम् त्रिता १,
८२.

सप्तदशा(श-अ)क्षर- -रः रार
२, ६२.

सप्तदशो(श-ए)क- -कम् साम्
३, ९.

सप्त-दिन- -ने यो २, ३०.

सप्त-द्वारा(र-अ)वह्नी(र्ण)णां-
-र्णाम् नाप ३, ४३.

१सप्त-द्वीप^a-

सप्तद्वीप-व(त्)वी- -वी वृजा
६, १२; वृत् ५, १०; रुजा ३, १.

सप्तद्वीपा(प-अ)धिप- -यः वपु
१, ६.

२सप्त-द्वीप^b-

सप्तद्वीपा- -पाम् वृत् १, ३;
वपु १, ६.

सप्त-द्वीप-समुद्र(द्र)द्रा- -द्रायाः
शि ६, १४.

सप्त-धा छां ७, २६, २; रार २, ३९;
योत् २, २७.

१सप्त-धातु^c-

सप्तधातु-क- -कम् गर्भं २.

सप्तधातु-मय- -यः योशि १,
४०; -यम् योशि १, ५६.

२सप्त-धातु^b- -तुम् गर्भं १.

सप्त-धामन्- -मभिः नापू ३, ५४^०.

सप्त-प(द)दा- -दा महा ५, १^१;
-दाम् महा ५, २१.

सप्त-युरी- -यैः गोत् १९^१.

सप्त-प्रणव- -वेत् वृजा ४, १.

सप्तप्रणव-मन्त्रित- -तम् वृजा
३, ३०.

१सप्त-भूमि^a- -मिषु वरा ४, १; सार
२७४: ८.

सप्तभूमिक- -कम् महा ५, ४३.

२सप्त-भूमि^b- -मिः महा ५, ४३.

सप्त-म- -मः हं १६; तु ९^१; नापू

१, ६; ५, ७; -मम् वृत् २, ६; त्रिता

२, ६१; त्रि ९; यो १, ६०; दत्ता

१, ६; सौ ३, १; योरा १५; इ

१४: १९; ऊ ६४: ७; नापू ६, ४;

गार ४०७: ६; ११; -माम् सुं १,

२, ३^१; अशि ७, ७; महा ६,

८३^१; च २१: १३; शि ४, ३१;

-मे हं १९; गर्भं ३; अक्ष ५;

त्रिता १, ९६; निह १, १३; म

४९: १८; सूता ५, १०; राधा

२, ५; -मेन पि १३.

सप्तमी- -मी नाद १०; नाप

८, १; महा ५, २५; अक्ष ५, ८५;

८६; ८९; अक्षि ४१; त्रिता ३,

१०; वरा ४, १^१; २; १६; -मीम्

महा ५, ३६^६; अक्षि ४०; गोत्

२६; -याम् नाद १५; रा ४२^५;

५; वत् ६, ४३.

सप्तमी-रूप- -पः पारा

१८.

सप्तम-चक्रे(क-ई)श्वरी- -री

शाप ३९८: १५.

सप्तम-भूमि- -याम् वरा ४, १.

सप्तम-श्रेणि- -याम् सार २७०:

१२.

सप्तमा(म-अ)क्षर- -रः ता २, १.

सप्तमा(म-अ)वरण- -णम् सार

२८४: ९.

सप्त-मातृ^d- -तरः सूता ५, १२.

सप्त-माला(ला-अ)धिदैवत- -तम्
रुजा २, ८.

सप्त-रात्र- -त्रम् पप ४१९: १३;

भि ६; -प्रात् निह १, ९.

सप्तरात्रो(त्र-उ)पित- -तम् गर्भं

३.

सप्त-रात्रि^e- -त्रौ व ४५९: ५.

सप्त-रूप-विनिवृत्(त्)सा- -साम्

सांका ६५.

सप्त(त-अ)तुं-सप्तदश-पद्-ध्व-
सं(व्या)रूप- -रूपैः रार २,

१३.

सप्त(त-अ)पिं- -पिंगाम् गु १६.

सप्त-श्लोक- -कम् वत् ५, १३.

सप्त-श्वर- -श्वरम् रुजा २, ८.

सप्त-वार^f- -रम् वपं ३११: ३.

सप्त-वासर- -रम् यो २, २८.

सप्त-विंशति-

सप्तविंश- -शः शि १, १४; -शाम्

मन्त्रि १४; चू १३; -शो अक्ष ५.

सप्तविंशति-तत्र-संयन्ध-

-न्धम् पत्र २.

सप्तविंशति-धा मा ३२.

सप्तविंशति-वर्णक- -कः रार

२, ७७.

सप्तविंशति-वर्णां(र्ण)आमन्-

-रमा अक्ष १, ७.

सप्त-विध, धा- -धः महा ५, ९; -धम्

छां २, ८, १; ३; ९, १; ८; १०, १;

६; कर् ३८; -धस्य छां २, ८, १;

-धा मैत्रि ६, २२; -धा: गर्भं १^१६.

सप्त-वैध^g- -धैः मन्त्रि ९.

सप्त-व्याहृति- -तिभिः शा १३^म.

सप्त-शत- -तम् निह २, २.

a) द्विस. । b) बस. । c) ऋ १, २३, १६ । d) तु. गपू. पृष्ठ ७३३k । e) °माम् इति पा.इ. यनि. शोधः द.
[एतदनु गपू. (पृ७१६) सस्य. 'लोक->काम्' इत्यत्र 'लोकाम्' इति शोधः कर्तव्यः] । f) °माम् इति निसा. ? यनि.
शोधः द. (तु. j.c.) । g) सा° इति अश्या. । h) उप. =२माम् । i) समासान्तस्य विकल्पः उत्सं. (पा ५, ४, ८७) ।
j) वा. क्वि. द. । k) दशवि° इति निसा. ? यनि. शोधः द. (तु. अश्या.) । l) द्विस. उप. व्यु. ? °प्र- इति अश्या. ।
m) °वीभिः इति अश्या. ।

सप्त-सं(ख्या) > ष्य-ल्यम् शि ४,
१०.

सप्त-स्वर- -रा: योशि ३, ८.

सप्त-होर्- -त्ता १शिसं ४; २शिसं
१.

सप्त(स-अ)ध्वर^० - -र: रार २, २५;
नापू २, १०; -रम् नापू ३, ८.

सप्त(स-अ)ध्व^० - -ऋ: मां ३; ४; यपू
४, ४; ५; नृउ १, ६; ७; राउ ३,
१; वउ १, ५; ७; विद्या १; २.

सप्त(स-आ)मन्^० - -रमानम् नृउ
३, ११.

सप्त(स-अ)चिस^० - -चिय: प्र ३, ५.

सप्त(स-आ)वरणक- -कम् राधा १,
१४.

सप्त(स-अ)ध^० - -धम् सूता १, २६.

सप्ताध-रथ-

सप्ताधरथिन्- -यिनम् सू
४१^०.

सप्त(स-अ)ह-

सप्ताहिक- -कम् व ४३३; १८.

सप्तो(स-उ)सर- -रम् गर्भ ५^०.

सप्त-प्रकट- -टम् त्रिता २, ४९.

सप्त-प्रकृति- -ति: रार ५, ७.

सप्त-प्रणव, या- -वम् वृपू २, ४; म२,
२८; -वया अण्य ४; -या: महा
१, १; -वाम् अना ११.

सप्त-प्र(विशण)णा^० - -णा मना २,
३५.

सप्त-प्रतिष्ठ, छा- -छा रापू ४, ९०^०; छा:
वृ ३, १, १९^०; -छौ रार २, १०^०.

सप्त-प्रत्याधान- -नम् वृ २, २, १.

सप्त-प्रथस्- -पा: मना १, १०^०.

सप्त-प्रपञ्चक- -कम् जाद १, ३.

सप्त-प्रयोजन-

सप्तप्रयोजन-ता- -ता गौ२, ७; ४, ३२

सप्त-प्रवृत्तिक- -कम् षपू ३, २.

सप्त-प्रिय- -नाणाम् वउ २, ७.

सप्त-प्रेत-पिशराच- -या: अण्य ७.

सप्त-फल- -लम् नार ६; -खानि राउ
५, ४; का २.

साफव- -वम् सु २, २, ८.

सप्त-यास्याभ्यन्तर- -र: सुं २, १, २;

-रम् महा ५, १०२; मं ४, १, ३;

-राम् अन्न ३, १३; -रे ष्या ७;

मं ४, १, ३^{११}; महा ३, ३, ६; १०^१;

अन्न ४, २५; २६.

सवाद्याभ्यन्तर-स्यापिन्- -पी
१संन्या २, २१.

सप्त-यिन्दु- -न्दु: रार ५, ७.

सविन्दु-मुख- -खम् वृपु ६.

सप्त-यिन्दुक- -क: सूता २, १५; -का:
वृपू ५, ८.

सप्त-विव्य-रूप- -रम् वि १५.

सप्त-वीज- -ज: योत् १, ४६; -जाम्
वृउ ९, ५.

सबीज-स्व- -स्वम् साम् ५, ११७.

सप्त-ब्रह्मन्- -ब्रह्माम् गोपू १८.

सप्तमा^{१०} - -भाम् छां ८, १४, १.

१सप्तमा- -मो छां ५, ३, ६^६.

सप्तमा-प्रपादिन्- -दिने नी ३, ८.

सप्तमा-स्थल- -लम् नाप ७; १संन्या
२, ७९.

सप्तमेय- -यम् व ४४१; २१;

४४७; ४; ४५१; १७; ४५४:

- २३.

सप्त-भाग- -गम् पत्र २.

सप्तभाजयम्^{१०} व ४३३; १६.

सप्त-भाय-

सामाभ्य-

सामाभ्या(व्य-आ)पति- -ति:
प्रवृ ३, १, २२.

सप्त-भृत्य-परिचारक- -क: शि ६,
१७५.

सभ्य^{१०}-

सभ्या(भ्य-आ)वसध्य- -ध्ययो:
नाप १, १^{१०}; कथु १, १.

सम्^{१०} द२^०.

१सप्तमा^{१०}- -म: छां २, १, १^१; वृ १, ३,
२२^१; जा ६; मैत्रे ३, ३; ते ५,
६२; नाप ३, ८९^१; ५, ११; ६, २५;
त्रिवि २, १६^१; रापू २, १^१; ४, ५;
१संन्या २, ३१; ७८; अन्न ३,
१२; ५, ४७; छाग २५; १; शि
६, ११७; गौ २, ४८; ४, २२; २,
२९; ६२, १८^१; -मम् प्र ३, ५; ४,
४; छां २, १०, १; ३; ३^१; ४; ४,
१, २; वृ १, ६, १-३; खे २, ६;
अना १७; मै २, ७; वृजा ८, ६^१;
१योत् १११; नाप ४-५, २८;
त्रिभा २, ५५; योचू १०७^१;
शां १, ४; ७, २२^१; महा २, ५४;
५९; योशि १, १४७; ६, ७५^१;
१संन्या २, ७५; अन्न ५, १०७;
अक्षि ३०; विता ३, १२; यो १,
२१^१; ३, १४; वरा १, ५; ७^१; ५,
६१^१; सु २, २, ११^१; गोव ६८:
१२; राधा २, ९^१; शि ३, ७; ६,
१४५; ७, २३^१; वउ ५, २९;
मव ३, २५; नी ५, १९; ६,
१३; ३२; १३, २७; २८; -मया
महा २, ५७; १संन्या २, २६;

a) मा ३६, ५ । b) वस । c) धितम् इति निसा? यनि. शोध: द. (ग्र. अश्या) । d) अष्टोत्तर^० इति अश्या । e) = ६स । f) वृ. गपू. वृ ५६३ । g) उप. = आकार-बीजावर- । h) 'सप्रथा' इति श्र १, २२, १५ । i) सहरु बाढा इति निसा । j) वैपरी यद. । k) वैद. शं., राना. '२स-भाग-> -ना' इत्यथि विकल्पमानौ । l) श्र १, ९१, २० । m) पा. 'सभाजय' इति शोध: द. । n) यु. इ = यत्ताप्रितिशेष । o) 'धयो: इति निसा? यनि. शोध: द. । p) = उपसर्गविशेष- । q) 'प्रम्' इति अश्या । r) यथा. वैपरी यद. । इह = युगपत्(इह)-, २समान- प्रष्ट. । s) 'मौ इति अश्या । t) वैद. उन. अन्वयाकतुः । u) 'इदमौ' इति आन. । v) वा. किति. द. ।

-मा गौ ३, २३; छ, ७०; ते १, ४५; योशि १, २३; अन्न १, २५; ५, ५५; ५६; -मा: वृ १, ५, १३; ते १, ४३; महाछ, १९; १०न्या २, २६; अन्न ५, २४; रुजा १, ११; सार २८७:१९; पी ४२२:१५; भव १, ३६; -मान् रुजा १, १३; -०मे हंयो १७; -मे वृ ६, १, ३^३; खे २, १०; ते १, २८; महा ५, ५५; त्रिता ३, १३; १४; शि ५, १८; भव ३, २३; गी २, ३८; -मेन निरु १, ७; -मौ व्रि २२^२; योशि १, ११६; लुअ १छ; पप ४१२:८; १४; त्रिता ३, १४; यो १, ७५; या २, १^१; यो ५, २७. साम्य- -म्यम् सुं ३, १, ३; गौ ४, ९३; १००; वरा २, ७५; सी २, १४; स ३७९: १२; -म्यात् अन्न ४, १२; ब्रसू २, १३; -म्ये गौ ४, ९५; गी ५, १९; -म्येन गौ ६, ३३. साम्य-वैपम्य- -म्याम्यात् सांस् ६, ४२. साम्य-श्रुति- -ते: ब्रसू ३, ४, १९. साम्या(म्य-अ)भि- -भिना अन्न ५, ७०. साम्या(म्य-अ)वस्था- -स्था सांस् १, ६१. सम-काय-शिरोधर- -र: थोचू ७१. सम-काल- -लम्^० अन्न ४, ८३; सु २, २, १०. सम-प्रीव-तिर- -काय- -य: यो १, ६; जाद ३, ३; ५, ५; वरा ५, ३२. सम-प्रीव-तिर- -शरीर- -र: के १, ५.

सम-प्रीव-तिरो- -नासा(सा-अ)प्र- दृश- -दृक् शां १, ५. सम-प्रीवो(व-अ)दर- -र: यो १, ३२. सम-चित्त- -त्तानाम् सार २३६: २०. समचित्त-त्व- -त्वम् गौ १३, ९. सम-चेतस- -ता: सार २६१: १७. सम-ता- -तया महा ६, ४४; -ता नाप ३, ५४; महा ४, १६; ६, २-४; २९; १संन्या २, २७; अन्न ५, ८५; १०८; गी १०, ५; -ताम् गौ ३, २; ३८; ते १, २८०; महा ४, ३६; १संन्या २, ३०; -ताया: अन्न ५, १११. समता-वदा- -शात् अन्न १, ५४. समता(ता-अ)वस्था- -स्था १थोत २५; १०७. सम-तेजस- -जसम् पा ९, ५. सम-त्व- -त्वम् नाप ४, २४; सी २, १६; गा २, ४८; -त्वेन गौ २, ५. सम-दर्शन- -न: नाप ४, १३; ५, २५; १आ १३; गौ ६, २९. सम-दर्शिन- -र्शिन: सार २८३: १०; गौ ५, १८. सम-दु:ख-सुख- -ख: नाप ५, ३७; गौ १२, १३; १छ, २४; -खम् गौ २, १५. सम-दृश- -दृक् पा ८, ५. सम-पर्वक- -कम् १संन्या २, ९. सम-प्रधान- -नी त्रि १छ. सम-प्राप्त- -प्तम् गौ ३, ४४. सम-सुष्टि^० - -द्वय: गौ १२, ४; -द्वि: गौ ६, ९. सम-भाव- -व: अध्या ४७. सम-रस- -स: योशि १, १४६; -सम् योशि ६, ३७; -सा: महा ४, १९.

समरस-स्व- -त्वम् सी २, १५. समरसा(स-अ)भास- -स: अन्न ३, १२. समरसी^०/भू समरसी-भाव- -वम् ध्या ९१. समरसै(स-ए)कत्व- -त्वम् थोचू ६छ. सम-रूप- -प: मैत्रि ३, २४. समरूपा(प-अ)त्मन्- -त्मा ते ४, ३४. सम-लोष्टा(ष्ट-अ)रम-काञ्चन- -न: नाप ३, ३४; गौ ६, ८; १४; २४; -ना: भि ११; आश्र ४. सम-सर्ववै(त्व-ओ)जस- -जसौ त्रि १छ^१. सम-स्थ- -स्था: विप्र १, ४. सम-हस्त-युग- -गम् वरा ५, ६१^१. समा(म-अ)भिन्न- -न्ना: गौ ४, ९३. समा(म-अ)वस्था- -स्था^०मुं २, २, ५२. समी^०/क समी-करण- समीकरणो(ण-उ)वपन- ग्रहण-ध्रवगो(ण-उ)च्छ्वास- -ता: त्रिवा १, ६^१. समी-कृत- -तम् त्रिवा २, ८३^०. समै(म-ऐ)काम्य- -त्म्यम् या २, १९^१.

२सम- समा^१- -मा: ई २; वृ ५, १०, १; अव्य १; २^३; सार २७६: १७; २८६: ६; गी ६, ४१; -माभ्य: ई८. समा-शत- -शै: सु २, २, ११. समत्त^१- -क्षम्^० गौ ११, ४२. समग्र^१- -ग्र: पा ८, ५; -ग्रम् वरा २, ४५; शा ३०^१; पा ८, ५;

a) ०म. इति अच्चा. । b) वा. किंवि द्र. । c) ०ता इति अच्चा. । d) वस. । e) ०वौ समो^० इति निरा. अच्चा. च पा.१ (तामिन्. अप्यन्यया) यनि. शोष: द्र. । f) ०ग: इति अच्चा. संटि. । g) ०णध्रप^० इति अच्चा.१ यनि. शोष: द्र. (द्र. निपा.). । h) ०ती इति अच्चा. संटि. । i) सदैका^० इति अच्चा. संटि. । j) = १वर्ष- । वैप१ यद्र. । k) वैप१ यद्र. । l) 'कुलाताम्' इति अच्चा. ।

- शिष्ट, ७१; गी०, २३:७, १:११, ३०; -प्राणि योशि ४, ६; -प्राग् गी ११, ३०.

समग्र-शक्ति-खचित- -ते अक्ष ५, ११३.

समग्र(प्र-अ)प्रध-गुणा(ण-आ)- धार- -रम् अक्ष ४, १९.

सम(म्/अ)ञ्

सम्-भाज^१- -जे सार २८६:८.

सम(म्/अ)ञ्च

सम्य(मि०-अ)ञ्च-ञ्च-स्यक्^१ प्र ५, ६; सुं १, २, १३; धे०, २१; मैत्रि ६, ३७; अना १९; २९; अ ३; ते १, ३७; द, १०९; १५ ९२; नाप १; ३; ३९; ६, २; त्रिभा २, ३२; ४७; ९०; ९७; मं ४, १, ५; त्रिभि ५, १२; ८, ६; १८; रार २, ३९; राप् ४, ५०; ६६; ५, ७; राज ५, २८; वा ४०; शां १, ३, १; १०; महा ६, १६; योशि १, ८९; ६, २; १संन्या २, ४१; अक्ष २, ३८; ४, ७२; यो १, ५३; २, १५; ३, ३२; ग १८; जाद ३, २; ५, १; ३; ८; ६, ३३; प्रा २, १; वरा ३, २५; ४, १६; ४०; शा ३४; सौ २, ३; नर २, ४; सु१, १, २४; ५०; ५३६; २, २, १६; इ १९; १९; शि १, ७; ७, ९३; गुपो ४२१: ७; गी० २२: २०; सांका ७१; गी ५, ४; ८, १०; ९, ३०; -स्यञ्चि वृ ५, १३, ३.

समीची- -ची व ४३७: १५६.

सम्यक्-प्र(शा)>ञ- -ञस्य महा

४, ११२.

सम्यक्-संपन्न- -ञ: जा ६; नाप ३, ८६; पप ४१९: ३; -ञा: वा २, १; मि १५.

सम्यग्-अर्थ- -र्थ: रार ५, ३.

सम्यग्-अवेक्षण- -णम् शां १, ७, २४.

सम्यग्-आलोकन- -नात् सु २, २, १७.

सम्यग्-ज्ञान- -नम् नाप ५, ३३; अक्ष २, ३५; ५, ३३; जाद ६, १९; म ४९: १८; -ने तेर, ४३; -नेन मुं ३, १, ५.

सम्यग्ज्ञान-समालोक- -क: अक्ष ५, २.

सम्यग्ज्ञाना(न-अ)धिगम- -मात् सांका ६७.

सम्यग्ज्ञाना(न-अ)वरोध- -धेन अक्ष ५, ४९.

सम्यग्ज्ञानिन्- -निन: पाशु २, ३८.

सम्यग्-बन्ध-त्रय- -स्थ- -स्थ: वरा ५, ५६.

सम्यग्-बन्ध-समुद्भूत- -तम् योशि १, १००.

सम्यह्-नाद-लघा(द-अ)- वधि- -धि ध्वा २३.

समजस^२- -सम् गौ ३, १३; वसू ३, ३, ९.

सम(म्-अ)ति/सृञ्

समति-सृष्ट- -ष्टा: छां १, ११, ३.

सम(म्-अ)ती[ति/इ(गती)]

समती(ति-इ)त्- -तानि महा ५, १६१; गी ७, २६.

समती(ति-इ)त्त्व गौ १४, २६.

स^१-मद्- -दम् पा ८, ५.

सम्-अधि/गच्छ, समधिगच्छति भव १, ५२; गी ३, ४.

समधीयते^३ गा २३.

स^१-मधु-म- -मम् त्रिता १, ४५.

सम(म्/अ)न्(प्राणने)

१सम्-भान^४- -न: प्र ३, ५; ८; ४, ४; तै १, ७, १; छां ३, १३, ४; ५, २२, १; वृ १, ५, ३; मै २, ६; ७; मैत्रि २, ६; ६, ३३: ७, ४; अना ३५; ३८; ध्वा ५६; प्रवि ६६; त्रिभा २, ७७; ८१; ८६; योचू २४; शां १, ४; प्रा ४, १; जाद ४, २३; २१; ३१; -नम् मना २, ७०; सुवा ९; १५; ध्वा ९७; -नाय टां ५, २२, १६; मैत्रि ६, ९; मना २, ६९; प्रा १, ६; -ने छां ५, २२, २; वृ ३, ९, २६; मना २, ६९; प्रा १, ६; -नेन सुवा ४; वरा ५, ३८.

समान-कर्मन्- -र्मं शां १, ४.

समान-जय- -याद् योसू ३, ४१.

समान-प्राण- -ण: ध्वा ९९.

समान-योग- -नेन त्रिभा १, ९.

समान-वायु- -यु: -युना शां १, ४.

समान-सं(शा)>ञ- -ञा: मैत्रि २, ६६.

समाना(न-अ)मन्- -नमे गौ ३, ६४.

समानो(न-उ)दान-व्याना(न-अ)-

पान-प्राण- -णा: त्रिभा १, ५१.

स^१-मनस्- -नम: व ४३७: ११६.

a) समस्तदा^१ इति शब्दा । b) सम् > समि (पा ६, ३, ९३) । c) कचित् वा. क्वि. द. । d) विष २९, १० । e) श्र १, ६९, १ । f) °अ: इति शब्दा । g) °लोच^२ इति निता. । h) वंपर यद. । i) = ६स । j) पा. वा. । k) °मदु इति निता. संदि. । l) = वायुविरोध- । वंपर यद. । m) तैआ १०, ३६, १ । n) तैआ १०, ३३, १ । o) तैआभा १०, ९९ । p) तैआ १०, ६९ । q) °मोक्षे इति निता. यनि. शोध: द. (उ. अक्षर) । r) °आ इति पा । यनि. शोध: द. (उ. सात.) । s) °दानो व्यान इति शब्दा. यनि. शोध: द. (उ. निता.) । t) = ५ग । u) श्र १०, १०१, १ ।

स-मनस्क-स्कः क १, ३, ८.
 सम्-अनु-प्र-विश्व
 समनुप्र-विष्ट-ष्टः मना १, १९०.
 सम्-अनु-प्रा(प्र-आ)प्
 समनुप्रा(प्र-आ)स-से ते ६, १०१;
 तार ४, ११.
 समनुप्रा(प्र-आ)प्य गौ २, ३६.
 समन्त-न्तम् वृ १, ३, १८; ३,
 ३, २; न्तात् ग ४; व ४; तुल
 ७७: ३; सि ६, ७६; ८१; १५२;
 सि ६, ३३; गी ११, १७; ३०.
 समन्त-तत्(>) गौ ३, २; ३५;
 त्रिवि ६, ६; ७, १९; पै ४, १४; सि
 ४, १४; गौ ६, २४.
 स-मन्त्र-न्त्रम् व ६, ६.
 सम्-अन्वा(नु-आ)रम्, >म्,
 समन्वारभेते वृ ४, ४, २; निर
 २, ५.
 समन्वा-रम्भण-णात् व ३, ४, ५
 सम्-अन्वा(नु-आ)लम्, समन्वा-
 लम्भम् शौ ५१: १०.
 सम्-अन्वि(नु-इ/इ(गती))
 समन्व(नु-अ)य-यात् सांस् १,
 १३१; सांका १५; प्रस् १, १, ४.
 समन्वि(नु-इ)त-ताः त्रिवि ६, २५;
 निर १, १९; तम् १योत ८६;
 ८९; सु १, १, १; न्तेषु त्रिवि ६,
 २३.
 सम्-अभि/घा
 समभि-हित-तम् २प्र ३६: ८.
 सम्-अभ्य(भि/अ)र्ष्व
 समभ्य(भि-अ)र्ष्व त्रिवि ७, १; सार
 ३, ८; पी ४२२: १२.
 सम्-अभ्य(भि/अ)स् (क्षेपण), स-
 मभ्यसेत् अना २३; ते १, २८; ३,
 ७४; १योत ४३; ६७; १०४;
 ११४; प्रिहा २, १०१; वोच्

८७; १०६; मं ५, १, ३; शां १,
 ७, २; ३७; योशि ६, ७; ७५; यो
 २, २; ३, ११; जाद ६, ६; १०;
 ११; २०; गोपु ३१; वरा २, ३;
 ५, ५५; शि ७, ६१.
 समभ्यस्ये निर १, २०.
 समभ्य(भि-अ)सन-नेन सार
 २३२: ८.
 समभ्य(भि-अ)स्त-स्तैः अन्न ४,
 ८४.
 समभ्य(भि-अ)स्य १योत ११४; योच्
 ६७; सु १, १, २८.
 सम्-अभ्या(भि-आ)र्ष्व/द्वा(दाने)
 समभ्या-ददान-नः वृ ४, ४, १.
 १-२समय-समि ३.
 स-मरुद्-माण-णः गोपु ३३.
 सम्-अर्ध-धम् इ १७: १.
 सम(म्/अ)र्ष्व>र्षि, समर्ष्य वि ७.
 सम(म्/अ)र्ष्व
 सम्-अर्ध-धं: गर्भ ३; नाप २; ३,
 ६८; महा ४, १०५; हंयो २;
 -धम् महा ४, १०५; -र्षानि करु
 ३३.
 सामर्ष्य-धम् १योत ५५;
 ५६; गौ २, ३६.
 सामर्ष्य-वाक्-क्तिः शौ
 ३, १.
 सम(म्/अ)र्ष्व>र्षि
 सम्-अर्धयित्-ता छां १, १, ८.
 सम(म्/अ)र्ष्व>र्षि, समर्ष्यामि
 व ६, ३०; समर्षयत् वृजा ६,
 ७; सार २२७: १४.
 सम्-अर्षयत्-यत् सौ २, ११.
 सम्-अर्षित-तम् मुं २, १; छां
 ७, १५, १; वृजा ६, १; योशि १,
 ७५; -ता: छां ७, १५, १; वृ २,
 ५, १५.

समर्षितव्यजनसंयुक्त-क्तम्
 शां १, ४६.
 सम्-अर्ष्य त्रिवि ६, २१; २५; सुता
 ५, १४.
 सम्-अव/नी, समवनीयन्ते वृ ३,
 २, ११.
 सम्-अव/ली, समवलीयन्ते वृ ५,
 १-३; सुबा ३.
 सम्-अव/लोक
 समव-लोकित-
 समवलोकित-सम्यग्-अर्थ-
 -र्थः अन्न २, ४४.
 समव-लोक्य त्रिवि ६, १; १०.
 सम्-अव/स्था
 समव-स्थित-तः त्रिवि ३३०; स-
 पै ४, २२; सौ २, १९; गी १३,
 २८; -ते वरा २, ६६.
 सम्-अव/ह
 समव-हारम् छां ६, ९, १.
 सम्-अवा(व/आ)प्, समवाप्नोति
 नाप ३, १; समवाप्नुयात् १योत
 १०६.
 समवाप हे १४.
 सम्-अवे(व/इ(गती))
 समवा(व-अ)य-यः सांस् ५, ९९;
 -यम् शारी १.
 समवाया(य-अ)भ्युपगम-
 -मात् प्रस् २, २, १३.
 समवे(व-इ)त-ताः मार २६२:
 १८; गौ १, १; -तात् गी १, २५.
 सम्(म्/अ)र्ष्व(व्याती), समर्षुते क
 २, ३, १४; सौ २, ५-६, १; वृ ४,
 ४, ७; घ्या १०६; १योत १३४;
 २योत १, ५; प्रिता ४, २५; शा
 २५; गोच ६७: २१.
 - समाशत सु २९३: १८९.
 सम्-अधि-धि: वृ ३, ३; नाप ८, १.

a) = १५। b) सैधा १०, १, १। c) वैप १ वर। d) या. क्वि. द.। e) अभ्यं निता., अभ्या. संति.।
 १) 'विसर्पति' इति आन.। g) निता. 'तं वृ' इति शोधः द. (द्व. अभ्या.)। h) गपु (पृ १०४) अव/स्था>
 अवस्थित-> -तः इत्यत्र यनि. शोधः कर्मणः। किमव इति ध्या.। i) प्र ९, ८३, १।

समष्टि-स्व- -स्वात् सर ३, १६.
 समष्ट्या(ष्टि-अ)ण्ड- -ण्डम् वै
 १, २६.
 सम(म्/अ)स्(क्षेपणे)
 सम्-अस्त, स्ता- -स्तः छां ८, ६, ३;
 ११, १; पा १०, २; -स्वम् अ १;
 ५ या १००; त्रिवि ३२; महा ६,
 १३; वरा ३, १४; पा १, ५; ८; ८,
 ६; ७; ९, २; तिसि ३८२: १४;
 -स्तस्य छां २, १, १; अक्ष ४, ३५;
 रुह ४८; -स्ता अक्ष ४, ६२; -स्ताः
 त्रिवि ६, १; अक्ष ४, ७१; पा ८,
 ८; १०; तिसि ३८२: ६; -स्तान्
 वा ३; भव १, २४; -स्तानाम् वृजा
 ३, १; शि २, २७; -स्तेषु नाप ६,
 २५; योशि २, १०; -स्तेः शि ५,
 २५.
 समस्त-कुल-ज- -जैःशि ६, ६९
 समस्त-कुल-संयुत- -तः शि
 ६, १७५.
 समस्त-दिव्य-मङ्गल- -नि-
 दान- -नम् त्रिवि ७, ६.
 समस्त-दुःख-दुरित- -तम् व
 ४५६: १७.
 समस्त-दुरित-क्षय- -कर- -रम्
 त्रिवि ७, ४५.
 समस्त-नष्ट-संकर- -रूपः सौ
 २, १६.
 समस्त-नाम-रूप-कर्मा-
 (र्म-अ)तिदूर-
 समस्तनामरूपकर्मातिदूर-
 ता- -तया त्रिवि ८, ८.
 समस्त-पातको(क-उ)पपातक-
 महापातक-
 समस्तपातकोपपातकमहा-
 पातका(क-अ)गन्यागमन-नी-
 हत्या-महहत्या-भ्रूणहत्या-वीर-
 हत्या-पुरुषहत्या(त्या-आ)जन्म-

कृतहत्या-कीदहत्या-गुरुहत्या-
 पितृहत्या-प्राणहत्या-चराचर-
 हत्या(त्या-अ)भक्ष्यमक्षण-प्रति-
 ग्रह-स्वकर्मविच्छेदन-स्याम्यार्ति-
 हीनकर्मकरण-परधनापहरण-
 द्यूद्वाहभोजन-शत्रुमारण-
 चण्डालीगमना(न-आ)दि-
 ममस्तपाप-हरणा(ण-अ)र्थ-
 -यम् गार ४०८: २.
 समस्त-पाप-निमुक्त- -क्तः शि
 ६, १६८; १७५.
 समस्त-महतेजोराशि-
 समष्टि-रूप- -पम् त्रिवि ७,
 २९.
 समस्त-ब्रह्म-वाचक- -वाच्य-
 -प्यः त्रिवि १, ११.
 समस्त-ब्रह्माण्ड-जाल- -लानि
 त्रिवि ६, १०.
 समस्त-ब्रह्माण्ड-समष्टि-
 जननी- -नीम् त्रिवि ६, १०.
 समस्त-ब्रह्माण्डा(ण्ड-अ)न्तर-
 बहिष्(>) त्रिवि ६, १०.
 समस्त-सुवन- -नस्य सौ १९.
 समस्त-भृत्य-संयुक्त- -क्तः शि
 ६, १२.
 समस्त-महापातको(क-उ)पपा-
 तक- -कात् श ३६.
 समस्त-मोक्ष-साधन्य-पदा-
 (इ-अ)नियेक- -कम् त्रिवि ६,
 २५.
 समस्त-याग- -गानाम् पाण्डु १,
 ११.
 समस्त-याता(त-आ)यात-
 ययम्- -ययम् भा ३७.
 समस्त-विद्या-जाल- -लानि
 त्रिवि ६, १; वरा १, १.
 समस्त-विषय- -याणाम् भा ३५.
 समस्त-वेद-वेदान्त-सार-

निर्माण- -णम् म ४८: २.
 समस्त-वेद-शास्त्रे(ब-इ)-
 तिहास-पुराण- -णानि त्रिवि ६,
 १; वरा १, १.
 समस्त-व्यष्टि-मस्तक- -कात्
 वै १, २९५.
 समस्त-साक्षि- -क्षिम् कै १, ७,
 २, ५.
 समस्त-साक्षिन्- -क्षी त्रिवि १०७
 समस्त-स्वरूप-विरोध- -कारि-
 (न्)गी- -गी त्रिवि ६, १६.
 समस्ता(स्त-अ)घ-शासक-
 -कम् म १, ५.
 समस्ता(स्त-अ)रिष्ट-शान्ति-
 -न्तये नि ३.
 समस्ता(स्त-अ)र्थ-जाल- -क्षेपु
 महा २, ६२; वरा ४, २७.
 समस्ता(स्त-अ)वयव- -वेद्यः
 भव २, २९.
 समस्ता(स्त-अ)विद्या(या-अ)-
 षट्- -व्यापक- -क्तः त्रिवि २,
 १५.
 समस्ता(स्त-अ)विद्या(या-आ)-
 पादक- -क्तः त्रिवि ६, १२.
 समस्ता(स्त-अ)विद्यो(या-उ)-
 पाधि- -धिः त्रिवि २, ४.
 समस्ता(स्त-अ)साधारण-
 चिह्न- -चिह्नित- -तः त्रिवि ५,
 १२; ७, १५.
 समस्ता(स्त-अ)साधारण-
 दिव्य-भूषण- -णैः त्रिवि ५,
 १२.
 सम्-भास- -सः छां ६, ४, ७; -सेन
 भ २, २०; गी १३, ३; ६; १८,
 ५०.
 सामासिक- -क्त्य गी १०,
 ३३.
 समास-वत्(>) १ शोत २१;
 =सचिन्- । d) उप. < ✓ वाच

a) *स्तकर्मा इति निता. । b) व्यष्टि इति शब्दा. । c) उप. =सचिन्- । d) उप. < ✓ वाच
 (हितायाम्) । e) *मानेन इति शब्दा. ।

योशि १,८९; यो १,१९; जाद
५,१; २; शि १,३७; छ,३२; ६,
२८४; ७,१; १३६; सांका ५३;
गी १३,१८.

सम्-आसम् छां ७,१५,३.

समा- २सम- द्र.

सम्-आकुल- -लः सार २६०:१९;

-लम् सि ६, १३; २०; -ले शि
७,७०.

सम्-आ/कृ

समा-कृत- -तम् व ४६१: ३;
४६४: २०.

सम्-आ/कृप्

समा-कर्म- -यात् व्रस् १,४,१५.

समा-कृष्य त्रिना २, १३०; शां १,
७,१४; ४३; योशि १, ९१; यो
१,२४; जाद ६,२२; ४०; ७,६;
७; १३; वरा ५,६३.

सम्-आ/कम्

समा-कर्म १योत ११६; मु २, २,
४२.

सम्-आ/क्या

समा-क्यात,ता- -तः नाप ३,५६;
राप् ४,५६; जाद ७,१४; -तम्
राप् ४,६७; यो ३,८; सांका ६९;
-ता वरा ६,२९.

सम्-आ/गच्छ,गम्, समागच्छतः

छां १,१,६; अन्य ११०.

समा-गत,ता- -तः जाद ४, ४२;
४६; सार २३०: ८; -ता: सार
२४२: ४; गी १,२३.

समा-गात् सु १,८६.

समा-गाम- -मः मैत्रि ७,११.

सम्-आ/शृह(>म्), आ***सं-

शृमाय वप् १,४९.

सम्-आ/चर,समाचर अन्न ४,८२;

मु २,२,९; गी ३,९; १९; समा-
चरत् शृमा ४,२; ७; बाला १०;

त्रिना २,५२; ५३; ९४; शां १,३,
१२; यो २, ३१; ४७; जाद ५,
१२; १३; जाभा १९; इ १३:
११; सूता २, २२; गोव ६८:
११; शि ६,३६; भव ५,१०.

समा-चरत्- -रन् गी ३,२६.

समा-चार- -रात् गी ४,४२; ४४^३;
-रे व्रस् ३,३,३.

समाज- समज् द्र.

सम्-आ/ज्ञा

समा-ज्ञा- -ज्ञा: तै ३,१०,२.

सर्-मा(त्रा>)त्र- -त्रात् रार १,७.

सर्-मात्र(वृ-अ)ष्टक- -कम् त्रिता
२,४९.

सम्-आ/दा(दाने),समाददीत वृ ४,
२,१.

समा-दाय व्रवि २१; वृजा ४,१; व्रवि
५८; योशि ५,२५; यो २, २९;
घि ६,१६१; अवि २१.

सम्-आ/दिश,समादिशेत् पित्र ६,
१०.

सम्-आ/धा, समाधस्त्व पित्र १,७;

समापेहि अध्या २६; समा-
दध्यात् ध्या २३.

समा-दधान- -नाय पा ३, ९^४.

समा-धातुम् अध्या ५९; गी १२,९.

समा-धान- -नम् महा ४, ७९^४.

समाधान-जाप्य- -प्याभ्याम्
मु २, २,२०^१.

समा-धाय अन्न ४, २; ५; त्रिता ३,
७; ५,२०; गी १७,११.

समा-धि- -धि: गी ३,३७; मैत्रि
६,१८; अना ६; १७; तै १,१६;
३७^५; १या ४१; १योत २५^५;

१०५; १०७^५; त्रिना २,
३२^५; १६२^५; योचू २;
११२^५; सं १, १, १०^५;

शां १,१; ११; पै ३, १९^५; महा
४,६१; ६२; अन्न १,२८^५; ५,
७५^५; अध्या ३५; १भव २१^५;
२अव ३३८:२; जाद १,५; १०,
१; ५; मवा ७; वरा २, ७५; ५,
१२; सौ २, १४-१८; सर ३, २५;
२७-३०; मु २, २, ५४-५६; भव
३, ३०^५; योसू १, ४६; ५१;
३, ३९^५; छ, २८; -धिना नाद
५४; योशि ६, ७५; अध्या १७;

-धिभि: सर ३, ३१; -धिम् व्रवि
६५; १योत १०६; पै ३, १; अध्या
३८; यो ३, १४; जाद १०, १;
सर ३, २५; मु २, २, १९; -धौ
आर २; तै १, ४०; योचू १०;
११०; ११३; सं २, ३, ४; सार
२४३: ८; योसू ३, ३८; गी २,
४४; ५३.

समाधि-क- -कः योरा २.

समाधि-काल- -लात् अक्षि ४५.

समाधि-द्वितय- -यम् तै ५, ३४.

समाधि-निर्धूत-मल- -लस्य मै
४, ४, ९^१; भव ३, ३१.

समाधि-निर्धूत-मल- -लस्य
मैत्रि ६, ३४^१.

समाधि-नि(छा>)ष्ट- -ष्ट: नाप २.

समाधिनिष्ट-ता- -ताम्
अध्या १६.

समाधि-परिणाम- -मः योसू
३, ११.

समाधि-भावना(न-अ)र्थ- -र्थः
योसू २, २.

समाधि-धिरम- -मे सु १, १, ३.

समाधि-शब्द- -ब्देन महा ४,
१२; अन्न १, ४८-५०.

समाधि-शून्या(न्य-आ)सम्-
न्या तै ४, ७६.

a) वृ. गण. पृ १३०८। b) शृ १०, ८४, ७। c) मग^० इति निता। यनि. द्योषः द्र. (द्र. अख्या.)।

d) न्य इति अख्या। e) शृ ८, ८१, १। f) = ६१। g) 'मन्त्रान्' इति अख्या। h) वैतृ. पाटी. सन्ने(मृ.ते)

=सन्व-> -न्ते (सा१) इति। i) सतापा^० इति निता। j) 'निर्धूतं' इति मैत्रि ६, ३४। k) 'निर्धूतं' इति मै ४, ४, ९।

समाधि-सिद्धि- -द्धिः योस् २, ४५
 समाधि-सुषुप्ति-मोक्ष- -क्षेपु
 सांस् ५, ११६.
 समाधि-स्थ- -स्थः सुषा १३;
 अन्न ५, ८०; जाद १०, ११;
 -स्थस् ति ७, ६; -स्थस्व अन्न १,
 २६; गी २, ५४.
 समाधि-हानि- -निः सांस् ४,
 १४.
 समाध्य(धि-अ)भाव- -चाव
 प्रस् २, ३, ३९.
 समाध्य(धि-अ)र्थ- -र्थम् महा
 २, ७५.
 समाहित, ता- -तः वृ ४, ४, २३;
 वृजा ३, ५; ४, १७; सुषा ९; छु
 ६; ध्या ९९; प्रवि २२; नाप ३,
 २३; ६, १८; त्रिवा २, ३८^१; ९, २;
 ११५; १२०^२; १४६; पै ३, १;
 योशि ५, ३९; अन्न १, ३७९^३;
 जाद ५, ४; ७, २; १३; गोव २८;
 सार २७८८: १; ति ७, ४५; गी
 ६, ७; -तस् छौ ८, १, ३; ४; -ता
 अन्न १, ४८; -ताः छौ ८, १, ५;
 मैत्रि ६, ३०; ३५; ३८; वृव ६, ४;
 प्रा ४, १०; -ते छौ ८, १, ३.
 समाहित-मानस्- -नाः योशि ५,
 १; जाद ६, ३२.
 समाहिता(त-आ)त्मन्- -स्मा वृ
 ४, २, १.
 रक्षमान- समन् द्र.
 रक्षमान, ना^१- -नः मां १०; छौं १,
 ३, २; वृ ४, ३, ७; वृव २, ६; शा
 ५; सांस् १, ६९; प्रस् ३, १९;
 -न्स् सुं ३, १, १९^२; वृ ६, ५, ४;
 श्रे ४, ६९^३; नाउ १, ३९^४; भव २,

२९^५; सांस् ३, ५३; ५, २४; -ना
 तु २, ९१^६; प्रस् ४, २, ७; -नाः
 स्व ६१: ९; -नानाम् अव्य ५^७;
 -ने सुं ३, १, २; धे ४, ७; प्रस् ३,
 ३, ५.
 सामान्य- -न्यः अचि २०; २४^८;
 -न्यम् गौ १, २२; सांका ११;
 -न्यस्व सांस् ५, ९१; -न्याव प्रस्
 ३, २, ३२; ३, ५१; -न्यानि रुजा
 १, १४; -न्येन महा ४, ११८;
 सांस् १, १३८.
 सामान्य-करण-धृति- -तिः
 सांस् २, ३१; सांका २९.
 सामान्य-तद्-भाव-
 -वाभ्याम् प्रस् ३, ३, ३३.
 सामान्य-तस्(>): सांस् १,
 १०३; सांका ६.
 सामान्य-भक्ति- -क्तिः सार
 २५०: ३.
 सामान्या(न्य-अ)सङ्ग-नाम-
 क- -कम् अक्षि २१.
 समान-कर्म-योग- -नो सांस् २, ४७.
 समान-गुण- -णाः सार २९१: २२.
 समान-स्व- -स्वम् ते १, २८; सांस्
 १, ५५; ८६; ६, ६५.
 समान-धर्मा(र्म-अ)पत्ति- -त्तौ
 सांस् १, ५०.
 समान-नाम-रूप-
 समाननामरूप-स्व- -स्वाण प्रस्
 १, ३, ३०.
 समान-न्याय- -याव सांस् ५, ३६.
 समान-फल-(-द>)वा- -दा तारा
 ८३: ८.
 समान-लोक-
 समानलोक-ना- -नाम् मना २,
 १५९^९.

समान-सं(सा>)ज- -जम् ति ७, २२
 समाना(न-अ)भिहार- -राव सांका
 ७.
 स'मान(द>)दा'- -दा राप् ४, ५८.
 सम्-आ/नी, समानयति मैत्रि २, ६.
 सम्/धाप्, >भाषि, भाषिपविष्,
 समाप्ति छु २५; नाप ५, १;
 वरा ४, ४१; समाप्ति वि गी ११,
 ४०^६.
 सनाप्यते नाप ३, ६१; विंश १, ८.
 सनापयति कौ २, १५.
 सनापिपयित्व वृ १, ५, २३.
 सम्-आपयितव्य- -न्यः कौ २, १५^७.
 सम्-आत्- -सम् २ प्र ३६: ६.
 सम्-आप्य नाप ३, ११; ७७; ४,
 ३८^८; ५, १; १९न्या २, १३; ५५
 ४१८: ३; कुं ४^९; या १, १; सौ
 २, २१^{१०}; वि ९.
 सम्-आ/पद्
 समा-पत्ति- -त्तिः योस् १, ४१.
 सम्-आ/वन्ध
 समा-बन्ध वरा ५, ३७.
 समाभिन्न- १सम- द्र.
 सम्-आ/ज्ञा>सन्, सामानन्ति
 २ प्र ३५: ८.
 स'मा(वा>)य- -यम् राप् ५, ६;
 पी ४२१: ८; वप् ३, १; २;
 -याव राप् ५, ८.
 सम्-आ/या, समायाति योशि १,
 १०४; समायाति त्रिवि ५, ११;
 १३.
 समाययौ राप् ४, २५; २७;
 समाययुः राप् ४, ११.
 समा-यात, ता- -तः योशि १, २१;
 -ता सार २४३: १८; -ताः सार
 २४३: १५.

a) सितः इति अख्या. संदि. । b) त्वम् इति अख्या. संदि. । c) अधिसमा इति अख्या. संदि. । d) = १सम- ।
 वैपश् यद. । e) श्र १, १६४, २० । f) =मात्रविशेष- । g) समा इति निशा. । h) तेषा १०, १४, ११ । i) =६स ।
 j) उप- = या सार-बीजावृ- । * बुदा इति निशा. अ. न्या. पा. १ यनि. शोषः द्र. (द्र. ग. पृष्ठ ७०h) । k) संन्यान्नेषि इति सchar.
 पाणे. [विदु. च. (NIA २, ३१)] । l) *मातेयः इति अख्या. । m) *पय्य इति निशा. अख्या. च पा. १ यनि. शोषः द्र. ।

सम्-आ/युज्

समा-युक्त- -क्तः त्रिन्ना २, १५२;
-कम् १योत ११; योशि १, ९; पं
१०.

सम्-आ/रम्, > रम्, समारभेत् शां
१, ५; वरा ५, ३९.

समा-रम्भ त्रिन्ना २, १४९; १५१; वरा
२, ४२.

समा-रम्भ- -म्भाः गी ४, १९.

सम्-आ/रम्

समा-रत- -ताः छां १, १०, ११.

सम्-आ/राष्

समा-राधन- -नम् सार २२० :
१५.

समा-राधन-तत्पर- -रः सार
२२० : १५; २२१ : ९.

समा-राध्य त्रिवि ५, १४; ६, १९.

सम्-आ/रह्, > रोपि, समारोपयेत्
आर २; १संन्या १, १; २संन्या
१७ : ७; कथु १, १.

समा-रह्य कौ ३, ६; योचू ७१; वरा
४, १४.

समा-रुढ- -रः नाद ५.

समा-रोप्य नाप ८, ५; शां १, ७, ४३;
१संन्या १, १; २, १००; ५५४ १८ :
१९; जाद ६, ३१; वरा ५, ५९;
सौ २, ११; कथु १, १.

सम्-आ/लिख्, समालिखेत् राष्ट्र ४,
४९; सुता ५, ४; नापू ६, ४.

सम्-आ/लिह्

समा-लिह्य मं ३, २, ३.

सम्-आ/लिप् > र्म्, समालिभेत्
शुजा ४, १.

सम्-आ/लोक् > लोकि, समा-
लोक् महा ३, ४०; या २, ६.

समावस्था- १सम- द्र.

सम्-आ/विश, > वैति, समा-
वेशयति सार २३८ : ९.

समा-विष्ट- -ष्टम् सु २, २, ६.

समा-वेद्य शि ६, १३४; वज ५,
३२.

सिमाविशत्^b नाप ५, १.

सम्-आ/वृ(आच्छादने)

समा-वृत- -तम् योशि १, १३७;
शि २, ७; ३, ३.

समा-वृत्य यो २, ३६,

सम्-आ/वृत् > वर्ति, समावर्तयति

छां ४, १०, १.

समा-वर्तयत् - -यन् छां ४, १०, १.

सम्-आ/वेष्ट्

समा-वेष्ट्य त्रिन्ना २, ६४; शां १,
४; जाद ४, १३^d.

सम्-आ/धि, समाधयेत् सु २९३ : ८;

गु ७३; समाधय अक्ष ५, २३;
३०; ३१; सु २, २, १५; समा-
धयेत् जु ७; २; योशि ६, २३;
यो २, ४; १३; २७; जाद ३, १२;
भव १, ३४.

समा-धित- -तः मैत्रि ६, ९; मना

२, ७१^g; ब्रवि ४१; -तम् शि
६, १४०; -ताः सार २९२ : १८;
-तानि महा १, १.

समा-धित्य नि २; योचू २१; भव

१, ५४.

सम्-आ/श्यस्

समा-श्वास-
समाश्वास-यत् - -वाञ् महा ५,
१६८.

समा(म्/आ)स्, समासते धेष्, ८^h;

शुजा ६, १२^h; वृष्ट ४, ९^h; ५,

९^h; वृष्ट ७, १३; राउ ५, २१^h;
व २४^h; गु ५३^h.

सम्-आसीन- -नः त्रिन्ना २, ५०,

शां १, ३, १; जाद ३, ६; -नम्
त्रिवि ५, १४; रार १, ७; २, ४५;
-नाः शि १, १५^h.

समास- समस् द्र.

सम्-आ/सञ्ज्

समा-सक्त- -कम् मै ४, ४, ५; मैत्रि
६, ३४; मैत्रे १, ४, ७; शा २;
भव ३, १५.

सम्-आ/सद् > सादि

समा-साद्य योशि १, ७७; शि ५, २६.

समासम् समस् द्र.

सम्-आ/स्था

समा-स्थाय महा ३, ५७; शि ७, ४;
भव ३, २४.

समाहित- समा/या द्र.

सम्-आ/ह्, समाहरेत् अक्ष ४, ८^h;

शि ७, २६.

समा-हर्तृम् गी ११, ३२.

समा-हार- -रात् अक्ष ३, ६३.

समा-हृत्य नाप ३, ७४; त्रिन्ना २,

११५; जाद ८, ९.

समि[म्/इ(यती)], समेति वृ ६, २,

२^h; सम्...पति धे ४, ११;
संपन्ति छां ४, १, ४; ६; अर
३२^h; सम्(एनि) या ९; समेति
कौ २, ८^h; व ४३७ : ८^h;
सम्...यन्तु कौ २, ८^h; स-
मैताम् वृ १, ५, १२.

समेत्यामि १संन्या २, ५३.

समीयते नाद ४८^m.सं-यत्ⁿ-

संयद्-वाम- -मः छां ४, १५, १

a) सदातो^o इति अख्या. । b) पा. १^o विरोत् इति अख्या. । c) ^oहितम् इति निशा. संटि. । d) सदात्वे^o इति निशा. संटि., अख्या. । e) तेषां १०, ३८, १ । f) श्र १, १९४, ३९ । g) ^oसीनान^o इति पा. १^o यति. च भव^o इति च द्विपदः सीधः द्र. । h) ^oचरे^o, ^oरभे^o इति अख्या. संटि. । i) श्र १०, ८८, १५ । j) तेषां १, २७, ५ । k) श्र १, ९१, १६ । l) मेचात् इति अख्या. । l) श्र १, ९१, १८ । सस्वय^o इति अख्या. । m) 'समीयते' इति अख्या. । n) वेगु. ३१४. <मं/यत् वा सं/यम् वा ।

१सम्-अय^० - यः सार २४२:११; पा ८, ३; -यात् पा ८, १०; -मे रुजा ३, १; सार २३८: ७; २४०:१७; २५७: १४; २८५: ३; १६; २८६: १८.
समय-भ्रान्ति-हरण- णम् निर्वा २९०: १३^b.
समयो(य-ञ)चित् - ताः सार २३७:२२; -ताभि सार २२३: १२.

२सम्-अय^० -
समया(य-था)चार-संगति- -ति: सो २९.

सम्-इति^{१०} - -तिम् छां ५, ३, १. समिति-गम - -मः वृ ६, ४, १८. समिति-जय - -यः गी १, ८.

३^bसम्-इय^० - -या व ४६६: १५. समि(म्/इ)ङ् > ङि, समिङ्गवति वृ ६, ४, २३^६.

समि(म्/इ)ष्, न्च्, > णिच्, ३^bस-मिन्धवे आ ६५; वृजा ८, ६; वृ ५, २१; सुबा ६; वै ४, २३; रु १५; राउ ५, २९; ता ३, ९; वरा ५, ७७; मु २, २, ७७; सम्-इन्ध्वम् व ४३७: ११६^१. समिन्धयेव शि ४, ४९.

सम्-इद् - -इः वृ ६, ४, २; गी ४, ३७; -इः सुं १, २, ३; वृ ६, ४, १२^१.

सम्-इष्^० - -इत् छां ५, ४-८, १; इ ६, २, ९-१३; १४^१; शि ७, २६; -इयः सुं २, १, ५; ८; मना २, १२, १६^१; सुद्र १, ६६^१; शि ४, ३९; ४०; ४३; ४३: ६०; -इधम् छां

४, ४, ५; ६-८, १; मना २, ८०६^१. समित्-पाणि- -णयः प्र १, १; छां ५, ११, ७; द १; -णि: सुं १, २, १२; छां ८, ९, २; १०, ३; ११, २; कौ १, १; ४, १८; -णी छां ८, ७, २.
समिद्-भ्रि-समुत्पद्य- -श्चम् वृजा ५, ५.
समिद्-इन्धन- -नम् शि ६, २८३^m.

सम्-इ(ध>)धा^{१०} - -धा: त्रि ३^०. समीकरण- , समीकृत- १सम- ३. समी(म्/ई)त्, समीश्रामहे पित्र १, १; समीश्रस्व पित्र ६, २.

सम्-इक्षय पित्र ३, ८; गी १, २७. समीची- समञ्च ६. समीप^० - -ने वृजा ४, ७; वरा २, २९; वार २६२: ८.

सामीन्य- -प्यात् सांका ७; नव ४, ३, ९.

समीप-ना- -नाम् कति ३. समी(म्/ई)र्, > रि, समीरयेत् योशि ३, ६.

सम्-ईर- -रस्य यो १, २. सम्-ईरण- -णः योशि १, १०४; यो १, १; -णम् योच ९८; शां १, ७, १; -णे मेत्रि ७, ११^१.

सम्-ईरित, ता- -ता: ते १, ३२; मुद्र १, ६; ७; -ता मुद्र १, ८; -ता: मुद्र १, ६; वरा ५, २८; -तौ वृजा ४, २०.

सम्-ईरितुम् छां १, ४^०. सम्-उ(इ>)च्/चर, > चारि, समुच्चरेत् १००; ऋवि ५९.

समुच्-चार्य वार २, ५३; ६५; ७८; शि ७, ६३; सुउ ५.

सम्-उ(इ>)च्/चि, समुच्चीयेत् न्व ३, ३, ६०.

समुच्-चय- समुच्चय-विकल्प- -रौ सांस् ३, २५.

सम्-उ(इ>)च्/छिद्, समुच्-छिनेत् यो २, २९; ३०.

सम्-उ(इ>)च्/छि(शि)प् समुच्-छिष्ट- -ष्टम् शि ६, २२०.

सम्-उ(इ>)च्/छि(शि) समुच्-क्षय- -यः शि २, २. समुच्-क्षित, ता- -तम् शि २, १४; -ताम् शि ६, ११८.

सम्-उ(इ>)च्/ज्वल्, समुच्-ज्वलति शि वि ६, २२; ७, २२.

समुच्-ज्वल- -लम् शि ६, ११७. समुच्-ज्वलित- -तम् शि ५, १०; ६, ८.

समु(म्/उ)ञ्च् ३^bसम्-उजिप्त- -जः भशि ६, ८.

सम्-उ(इ>)च्/कृप् समुच्-कृय यो २, २८.

सम्-उ(इ>)च्/कम् समुच्-कान्त- -न्तः नाद १३.

सम्-उ(इ>)न्/त्तिप् समुच्-क्षिप्य शि ६, १६२.

सम्-उ(इ>)त्/त्/तिद् समुच्-तीर्ण- -र्णः महा ५, १७४.

सम्-उत्था(इ>त्/स्था)>, तिष्, स्थापि, समुत्तिष्ठति छां ८, २, १०; समुत्तिष्ठतः छां ८, २, ६-८; समुत्तिष्ठति छां ८, २, १-५; ९.

a) =२काल- । वैप १ यद्र. । b) 'व्यं भा' इति निता. ? यनि. शोधः ३. [यतदनु गम्, (४६२५) 'भ्रान्ति-हरण-> णम्' इत्यत्र शोधः कर्तव्यः] । c) =संप्रदाय- । d) =समा । वैप १ यद्र. । e) ऋ ९, ९४, ४ । f) वैप १ यद्र. । g) 'मिञ्', 'मेञ्' इति भ्रान्ति. संदि. । h) ऋ १, २२, २१ । i) ऋ १०, १०१, १ । j) तैआ १०, १०, १ । k) ऋ १०, १०, १५ । l) तैआ १०, ६४, १ । m) गम्. (४१६६) सत्य. 'इन्धन-> नम्' इत्यत्र यनि. शोधः कर्तव्यः । n) 'मिद्वाः' इति भ्रम्या. संदि. । o) वृ. वैप १, २२३ । p) 'तम्' इति भ्रम्या. । q) अं च शब्धेति विकरणप्रदं (पा ३, १, ८५) । r) 'समुच्चितः' इति शौ १०, २, २७; भ्रान्ति.

समुत्तस्थो की २, १४; ४, १८.

समुत्-थाय वरा ५, ३४.

समुत्-थाय छां ८, ३, ४; १२, २, ३;

वृ २, ४, १२; ४, ५, १३; ६, २, ३;

मै २, २; मैत्रि २, २; त्रिभि ८,

१३; १७; शि ७, ७२; १३९.

समुत्-थित, ता- -तः अक्ष ५, १५;

-तम् योशि २, ५; -त्वा त्रिना २,

७०; -न्ताः पै ३, १; अथा ३६;

-त्वे श्वे २, १२; त्रिना २, ७२.

सम्-उ(द)त्/पद्/पादि, समुत्-

पद्यते सार २२०: १; समुत्पचन्ते छां

१, ९, १; नाश; त्रिवि २, १६; संद.

समुत्-पत्ति- -त्तिः सुद्र १, ५; -त्तिम्

भव ४, १६.

समुत्-पद्य सार २४९: ३.

समुत्-पद्यमान, ना- -न्ताः सार

२८०: १५; २२.

समुत्-पद्य, द्या- -द्यः कृ १७; -द्यम्

सार २२४: १४; -द्या सी ६;

सार २२०: १६; -द्याः ध्या ५१;

योच् १५; योशि ५, २०; सार

२१९: ६; २२०: ३; ८; २२४:

१६; २२७: २; २३१: १; २४३:

५; ११; २५८: १२; २७२: ३;

-द्ये ते ६, ८१.

समुत्पद्य-द्यष्टि- -द्ययः सार

२४५: १८.

समुत्-पा(व)द्या- -त्वा सार

२२२: ३.

सम्-उ(द)त्/पु/पादि, समुद-

पारयत् वृ ६, ४, २.

सम्-उ(द)त्/सृज्, समुत्पजेत्

छु ५^०.

समुत्-सृज्य ते ३, ७४; नाद ४१;

अक्ष ५, १५; जाद ४, ५०; ६१;

वरा २, ४४.

समुत्-स्रष्टुम् १योत १०८.

सम्-उद(द)स्/स्(क्षिपणे)

समुद-भस्त-

समुदस्ता(स्त-था)श्रम-

समुदस्ताश्रमित- -तः

भावो २.

सम्-उद-आ/ह

समुदा-हृत, ता- -तः १योत १२०;

योशि १, १०७; यो १, ४८; वरा

५, ५८; -तम् महा २, ३२; -त्ता

महा ५, २४.

सम्-उदि(द)इ(गतौ)], समुदेति

अक्ष १, ५३.

समुद-भय- -यम् मैत्रि ३, २७;

-यात् सांका १६.

समुद-आय- -यः मै ३, २०; -ये

भ्रातृ २, २, ८.

समुदाय-गुरु- -रुम् सूता २, ६.

समुद-हृत- -तम् महा ५, ५२.

समुद-ईयमान- -नम् त्रिता १,

५२.

समुद-यत्-

समुद्यद्-अकं-नि(म)मा-

-नाम् त्रिता १, ८३.

सम्-उदी(द)ई/र

समुद-ईरित, ता- -तः सुद्र १, ७;

-त्वा वरा ४, १; -न्ताः अरु ३ ३५^०.

सम्-उदी(द)ई/स्, समुदीपति छां

६, ६, १-४.

सम्-उद्/गम्

-समुद्-गम- -मे अक्ष ५, १११.

सम्-उद्/गू(निगरणे) गिर

समुद्-गीर्ण- -र्णम् शि ५, २.

सम्-उद्/दिश.

समुद्-दिश्य योशि १, १५७; शि ६,

१६८.

सम्-उद्/घृ(<>ह), समुद्धरते

शि ६, २१७; ७, ४१; समुद्धर

महा ५, १३५; समुद्धरेत् व ४;

वरा ५, ५६.

समुद्-धर्त्- -त्तां गी १२, ७.

समुद्-धृत्य ऐ १, ३; वृजा ७, १;

फाला ८; सर २, ८६; ९८; १०१;

१०३; जावा १६; शि ३, २, ५;

५; ७, १३२; सुमु ५.

सम्-उद्/भू, समुद्भवेत् सी ३२.

समुद्-भव- -वम् ऊ ६४: १.

समुद्-भूत, ता- -तः सार २२८: २;

२८९: ३; -न्ता योच् ३५.

समुद्र- -द्रः प्र ६, ५; छां २, ४, १;

१७, १; ३, १९, २; ४, ६, ३; ६;

१०, १; वृ १, २, ३; २, ४, ११; ३;

३, ३; ४, ५, १२; मना १, १३५^०;

१५५^०; सुवा ११७^०; २ शि ३२५^०;

-द्रम् प्र ६, ५; छां ६, १०, १;

-नाप ४, ३८; १ अक्ष ७; त्रिता ३,

३२; सु २९४; ६५^०; व ४३०:

१२; गी २, ७०; ११, २८; -द्रस्य

सुवा ११७^०; व ४५९: १४; -द्राः

सुं २, १, ५; श्वे ४, ४; मना २,

१२, १५^०; वृजा ४, २४; योशि ६,

११; महा ३, ५०; सु ३१; व ४

४, ४२; द्राव छां ६, १०, १; मना

१, १४५^०; २, १२, २५^०; जाद

१०, ६; -द्राव इ १८: १३; व ४

३, २२; -द्रे सुं ३, २, ८; वृ १, १,

२^०; मना १, १५^०; २, १३, २५^०;

महा १, १५^०; २ ३५^०; जाद १०, ७;

a) 'उच्छ्रवते' इति व्यञ्जा. b) 'द्वयः' इति मै ३, २। c) 'द्वयम्' इति मैत्रि ३, १। d) तेषा १, २७, ५। e) पै ११ यद. f) श्र १०, १९०, १। g) श्र ९, ९७, ४०। h) 'द्रः' इत्यपि पाठे. (तु. उग.)। i) मा १७, २। j) श्र ९, ९६, १९। k) 'द्रस्य' इत्यपि पाठे. (तु. उग.)। l) तेषा १०, १०, १। m) श्र १०, १९०, २। n) श्र ४, ५८, १। o) तेषा १०, १, ३। p) तेषा १०, ११, २। 'द्वेवम्' इति नादी.। q) तेषा १०, ११, १। 'द्वेवम्' इति व्यञ्जा.। r) श्र १०, १२५, ७।

च २० : १२५^१; यु ३८; ज्येयु
 यु ४३.
 समुद्र-वेला- -ला मी ४, २; मैत्रि
 ४, २.
 समुद्र-सकिल- -कल्प त्रिवि ८, २.
 समुद्रा(द-श)म(क>)जा- -जा: प्र
 ६, ५.
 सम्-उ(द>)न्/नम्.
 समुन्-नव-
 समुभवत-शिर-पाद्--इ त्रिवि
 २, ४^८; छा १, २, ११; जा ३, ३.
 ११.
 सम्-उन्मनस्-
 समुन्मनी-
 समुन्मनी/म्.
 समुन्मनी-भाव- -व: १आप
 २.
 सम्-उप/गम्
 समुप-गम्य योशि १, ९०.
 सम्-उप/जन्>जा, समुपजायते सु
 २, २, ४६.
 सम्-उप/सम्
 समुप-सम्य मवा ६.
 सम्-उप/विश, समुपविशु: छा
 १, ८, २.
 समुप-विश्व छा १, १२, ४.
 सम्-उप/स्था
 समुप-स्थित- -त: शु १, ३; -नम्
 वपं ३१२: १६; गी १, २८; २, २;
 -ते योशि १, १०१; १संवा २,
 १०३; यो १, ४०.
 सम्-उपा(प-था)/गम्
 समुपा-गत- -ते महा ४, ५५.
 सम्-उपा(प-था)/दिश, समुपा-
 दिशेव सु १, १, ३१.
 सम्-उपा(प-था)/श्रि, समुपाश्रव सु
 १, १, ७.

समुपा-श्रित- -त: गी १८, ५२.
 सम्-उपा(प-था)स्, समुपास्महे
 महा ६, १७-१९.
 समुपा(प-था)सित- -त: राष्ट्र ४,
 ३९.
 सम्-उपा(प-था)/स्था
 समुपा-स्थाप अत्र ३, १.
 सम्-उपे[प/इ(गती)], समुपे[त्रि] गी २,
 २९.
 सम्-उ(द>)ल्/लह
 समुल्-कह्य त्रिवि ६, १०.
 सम्-उ(द>)ल्/लत्
 समुल्-लात्- -सम् महा ४, ४१.
 समुद्- -सं/वह ६.
 सम्-मूर्ति- -सं: पा ९, १०.
 सम्-मूल- -स: प्र ६, १; -ल्म् व ३,
 ९, २८, ९; महा ६, ७; अथ ४,
 ५४; -कल्प आया ५९.
 समुलो(ल-उ)न्मुकित- -ते पे ३,
 १; अथा ३९.
 समु(म्/क/म)वहने, समुहताम् मृता
 २, १३९; समुह ई १६; व ५,
 १५, १९; समुहैव छु १५९.
 सम्-ऊह- -ह: सवा १, ११; -हा:
 सार २२३: १७; २६३: १६;
 २६४: ७; २६६: ३; २८४: ७;
 -हेत सार २५३: १८.
 समुह-मध्य-स्थ- -स्थे सार,
 २८६: १०.
 सम्-ऊष पा १०, २.
 समुष्म/ष्ठा, समुष्मते व ५, १४,
 ७; भा २४; समुष्मन्ति छा ७,
 १४, १; समुष्मते छा १, १, १२.
 समुष्मि व ५, १४, ७.
 सम्-कद्- -द्: व ४, १, २३; सुह:
 ४; -द्म् छा ५, २, ८; मैत्रि ६,
 ३६; आया ६३; गी ११, ३३;

-द्वागम् भव १, १२.
 समुद्-हाय- -य: मुद्र २.
 समुद्-वेग- -गा: गी ११, २१.
 सम्-कदि^१- -द्वय: सार २५३: १९;
 -दि: छा १, १, ८; यो १, १९^१;
 -दिम् छा ५, २, ९; -द्वयै मैत्रि ६,
 ३९.
 समुदि-सुल- -सम् सार २५४:
 १४.
 समो[म्-था/इ(गती)]
 समे(पा-इ)व, ता- -ता: द १; शि
 २, २०; ५, २४; पित्र १, ६;
 -वताम् सार २५३: १८.
 समे(पा-इ)व छा ५, ११, १; खे ६,
 ३; कथु २, १.
 समैकात्म्य- १सम- ६.
 सम्-मौक्तिक- -कम् शि ६, १०.
 सं/पत्
 सं-यात^१- -तम् छा ५, २, ४, ५;
 सं/पद्>पादि, संपद्यते प्र ५, ४;
 छा ६, ८, ६; १५, १; मैत्रि १,
 १; त्रिवि ६, ८; यर्ग ३; वृ ५,
 ३; त्रिना २, १६३; गं, २, ३, ४;
 महा ४, ९, १; ५, १४६; अथ ५,
 ७८; ७९; त्रिता ३, ५; १६; ५,
 ६; ८; जाद १०, ९; १०; गोप
 १६; आर्षे ९, ९; मिह १, १३;
 २, १; ३प ३४: १६; ३५: ७;
 अवि ६; ८; म्र ४, १, १९; यो
 १३, ३०; सम्-वद्यते व ६, १,
 ४; संपद्यति मैत्रि ६, २७;
 संपद्यते वृ २, ३; शि ७, ४०;
 सम्-पद्यते छा ५, १, ४;
 संपद्याते छा ६, १, २.
 संपेदु: छा ४, ४, ५; ८, ११, ३;
 संपस्ये छा ६, १४, २.
 संपादयन्ति अत्र २, ७.

a) तेजा १०, ११, २। b) 'दम्' इति निता., अथवा. संदि.। c) पा ५, ४, ५१। d) =धय। e) तेजा ३, ५, २२। f) का ४०, १, १६। g) 'हव' इति निता.: यनि. शोध: द. (उ. अथवा.)। h) 'मर्षि' इति आन. संदि.। i) 'कद्म्' इति निता. संदि.। j) =राक्षियरोव-। k) 'कुक्ते' इति आन., अथवा।

संपत्ति^१ - सः १अय ३१; मत् १, २, ३१.
 संपत्ति-सुख-(ज्ञ>)ज्ञा^१ - ज्ञा सार २६३: १०.
 संपद्^१ - पद् छां ५, १, ४; १४^३; वृ ४, ३, ३२; ६, १, ४; १४^३; गी १६, ५; -पद: वृ ३, १, ६; महा ३, ५३; अक्षि २३; भव १, १८; -पदम् छां ५, १, ४; वृ ६, १, ४; गी १६, ३-५; -पदा योशि ६, ६८; -पदे छां ५, २, ५; वृ ६, ३, २.
 संपत्-अद् - अ: ध्या १७.
 संपत्-सारस्वत - तौ ६९.
 संपत्-सुत-स्त्री-प्रलय-ये भव १, ५५.
 संपद् छां ६, १, २; मत् ४, ४, १.
 संपद्यमान - नै: प्र ३, ९.
 संपद्य - अ: प्र ५, ३; ५; छां ६, ८, १; ८, २, १-१०; ६, ३; -अम् महा १२, ३८; १अव २९; भाष्ये ८: ९; -अस्य भाषो १६; -आ: मैत्रि ६, २२; -त्राय दशा २^३; व ४५६: १४^३.
 संपद्य-तम - म: वृ ४, ३, ३३.
 *संपादया-
 *संपादयां/कृ, संपादयांचकार छां ५, ११, ३; संपादयांचक्रु: छां ५, ११, २.
 *संपादयाम(म्/अ)स(भुवि), संपादयामासु: पित्र १, २.
 संपादित - तम् सार २२३: ११; -ता: सार २२३: १०; -तानि सार २२३: ११; २५४: १६.
 संपाद्य वृ ३, १०; वृ ६, ५.
 संपाद्य - या: १थोत १२३^३.
 संपरि/शृद्
 संपरि-शृष् ६ १, २, १३.
 संपरि/स्यज्
 संपरि-स्यज्य महा ४, ८; ६, ८; अक्ष

१, ३२; ४, ६५; मुद् २, १८; ६८.
 संपरि/शृद्(आच्छादने)
 संप(रि>)री-वृ(त>)ता- -ताम् अरु २४७^३.
 संपरि/प्व(स्व)ञ्ज्
 संपरि-प्वक - क: वृ ४, ३, २१^३; मत् ३, १, १; -क्तौ वृ १, ४, ३.
 संपरी(रि/इ(गती))
 संपरी(रि-इ)स्य क १, २, २.
 संपरे(रा/इ(गती))
 संपरा(रा-अ)य - ये इ १२: १२.
 संपराय - य: क १, २, ६; -ये क १, १, २९; नृप २, १२; मत् ३, ३, २७.
 सं/पद्, संपद्यति मु २, २, ५१;
 संपद्यध्वम् छाग २४: २०;
 संपद्यवै छाग २४: १; संपद्येत् त्रवि ५४^३; जाद ५, १२.
 संपद्यत् - इयन् क १, १०; नाप ५, ३६; गी ३, २०.
 सं/पा(रक्षणे), संपाया: पा ४, ५.
 सं/पा(पाने)
 संपीयमान -
 संपीयमान-सौष्ठव - धम् सार २३८: २३.
 संपात - सं/पत् द.
 सं/पीद् > इ
 संपीठ्य वृ ७, १२; प्या ७४; १थोत १२०; मित्रा २, ४९; योच् ४६; शां १, ३, ७; ९; ७, ४३; महा ५, ७५; योशि १, १०४; मु २, २, ४२.
 सं/पुद्
 संपुट - ट: वरा ५, ४५; -टम् त्रिता ३, ११; अदे ११; तिसि ३८२: १०.
 संपुटी/कृ
 संपुटी-कृत्य त्रिता ३, १८.

संपुटित - त: वृजा २, ५^३; -ता: सूता १, ३३; -तौ ध्या ६९; योच् ४०.
 सं/पुष् > पोषि
 संपोष्यमाण - ण: सार २७४: १८.
 संपुष्पित - तस्य मना २, १९७^३.
 सं/पूज > जि, संपूज्येत् रापु ५, ६; म २, २०; शि ७, ७५.
 *संपूजया -
 *संपूजयाम(म्/अ)स(भुवि), संपूजयामासु: सार २४२: २३.
 संपूजित - त: त्रिवि ६, १७; शि ७, ७३.
 संपूज्य वृ ३, १०^३; शु १, १; त्रिवि ५, १३; शां १, ५; अरु २, ४; २६; सर १, १; लं २१४: ३; शि १, २; २२८; दया १५; सुमु ११; वृ ६, १८.
 सं/पृच्
 संपर्क - कांत् शि ६, १८४; ७, १०६.
 सं/पु > पुद्, पुरि, संपुर्येते छां ५, ३, ३; १०, ८; वृ ६, २, २.
 संपुरित, ता - तम् सार २२४: ११; -ता: सार २२५: २; २६४: ७; -तानि सार २२३: ६.
 संपूर्ण - णै: महा २, २७; -णम् पाशु २, ३५; रुह ५१; वरा २, २१; शि ६, २२४; -णां: सार २२३: ८; २२४: २१; २३३: २१; २४२: ६; २६९: ५; ६; २८३: १०; -णं जाद ८, ९.
 संपूर्ण-कुम्भ -
 संपूर्णकुम्भ-वत् त्रिमा २, ९८; जाद ६, १३.
 संपूर्ण-केवल - क: महा २, ७३^३.
 संपूर्ण-वन्द् - वद(न>)मा - नाम रा ४२४: २२.

a) नवसं इति ऋष्या. । b) षा: इति निमा. । c) तैत्र्या १, २७, ३ । d) पं इति ऋष्या. । e) तम् इति ऋष्या. । f) तैत्र्या १०, १, १ । g) उप. = १३वत् - ।

संपूर्ण-चन्द्र-संकाश- -शम्भु ह
 ६.
 [संपूर्णचन्द्रसूर्य- -संतिद, १३०.
 संपूर्ण-सा- -शम्भु गोचर ६८: १४.
 संपूर्ण-रूप-
 संपूर्णरूप- -पिणः राशु २,
 ३४.
 संपूर्ण-द्वन्द्व- -यः शौ २, ६.
 संपूर्ण(सं-अ)नन्दै(न्द-ए)क-
 शोष- -यः पप ४२०: १६.
 संपूर्णं सां १, ७, १.
 संपूर्णमाण, णा- -अम्भु सार २८१:
 १; -गा: सार २३३: ३१; २१-२३.
 सं-प्र/कट्
 सं-प्र-कटित-
 सं-प्रकटित-वेद-संभव-
 -वाभ्याम्भु सार २४७: २१.
 सं-प्र/काश्
 सं-प्र-काशित- -ता: शौ ३, ११.
 सं-प्र/कृ, सं-प्रकृष्यते शब्दाभा १८.
 सं-प्र/कृप्, सं-प्रकृष्यति भव १, ४०.
 सं-प्र-कृष्य- -ये महा ५, १२१.
 सं-प्र/कृत् > कीर्ति
 सं-प्र-कीर्तित, ता- -तः शौ १८, ४;
 -ता: शि ४, १०.
 सं-प्र/कृत्, सं-प्रकृष्यते श्वि १; १४
 ३०: ४.
 सं-प्र/कृत्, > प्रकृ, सं-प्रकृष्यते शि ४,
 २१; सं-प्रकृष्यति इ १८: १४; सं-प्र-
 कृष्यते इ १८: १४; १५; १६.
 सं-प्र- -से शि ७, ७.
 सं-प्र/कृत्
 सं-प्र-कृष्य- -हः कौ २, १५.
 सं-प्र/कृत्
 सं-प्र-कृष्य- -तः शोष् १, १७.

सं-प्र-कृत-समाधि- -धि: सु २,
 २, ५२.
 सं-प्र-कृत-समाधि-वस(> १)
 वरा ४, ३८.
 सं-प्र-ति^१ छां २, १, ५; ५, ११, २१; ४^२;
 ६^३; ८, ११, ११^३; ३; सार ४, १६;
 महा ३, ५५; साम् ३, ६.
 सं-प्र-ति-
 सं-प्र-ति-काल- -रुम्भु सांका
 ३३.
 सं-प्र-वति(ति-अ)वसित^१- -तानाम्
 १ संभ्या २, ४.
 सं-प्र-ति/घ्रा(<स्था), > घ्रापि
 सं-प्र-ति-घ्रा- -घ्रा शौ १५, ३.
 सं-प्र-ति-घ्राप्य छां ८, १५, १; अ ३.
 सं-प्र-ति-घृत- -घ्रा: प्र ४, १; अ १;
 घ्रा १०.
 सं-प्र/वृ(दाने)
 सं-प्र-वि- -सि: वृ १, ५, १७.
 सं-प्र-दान- -नम्भु कौ २, १५.
 सं-प्र/वृ, सं-प्रवृष्यते घ्रा २५: २; २.
 सं-प्र/वृष्, सं-प्रवृष्यते यो १, ४५.
 सं-प्र/मुष्
 सं-प्र-मुष्प वृ ४, ३, ३६.
 सं-प्र/यच्छ(दाने), सं-प्रयच्छति कौ
 २, १५; सं-प्रयच्छति छां २, २४,
 ६; १०; १६.
 सं-प्र/युष्, सं-प्रयुष्पते जाद ६, ५१;
 सं-प्रयुष्पते शौ ३, ५.
 सं-प्र-युष्- -कम्भु मैत्रि ७, ११; ते
 १, १२.
 सं-प्र-योग- -मादु गर्भ ३.
 सं-प्र/ली, सं-प्रलीयन्ते शौ ३, ४.
 सं-प्र/वष्, सं-प्रवष्पति लु १; योशि
 १, ७५; यो २, १; जाद ७-१०, १.

सं-प्रोषयते योशि १, १५९.
 सं-प्रो(प्र-उ)क- -कः ते १, १७; अक्ष
 २, ४.
 सं-प्र/यिष्
 सं-प्र-विद्य व ६.
 सं-प्र-यो- -यो पप ४१८: १६१.
 सं-प्र/वृष्
 सं-प्र-वृष्- -तानि यौ १४, २२.
 सं-प्र/वृष्
 सं-प्र-वृषि- -दि: मव ५, १३.
 सं-प्र/सद्, > सद्, सं-प्रसदीदति महा
 ५, ६६.
 सं-प्र-सद्- -स: छां ८, ६, ३; ११, १.
 सं-प्र-साद्- -स: छां ८, ३, ४; १२, ३;
 मै २, ३; मैत्रि २, २२^३; अ १^३;
 घ्रा ४; -दाएम्भु १; ३, ८; -वे
 वृ ४, ३, १५.
 सं-प्र/सू(प्रवर्षे), सं-प्रसूयन्ते अ ३.
 सं-प्र-सूत- -ता: मुं २, १, ५; ७.
 सं-प्र-सूत-कलप्र- -प्राणि महा
 ३, ७.
 सं-प्र/स्था > तिष्, सं-प्रतिष्ठते प्र ४,
 ७; ९; सं-प्रतिष्ठते प्र ४, ७;
 सं-प्रतिष्ठति प्र ४, ११.
 सं-प्र/सू, सं-प्रसूयते छां २, २३, ३;
 ३; मै ४, ११^३; मैत्रि ५, ३; सं-प्र-
 सूयन्ते छां २, २३, ३.
 सं-प्र/प्रा(प्र/आ)प्, सं-प्रप्राप्यन्ति योशि
 १, १९९; सार २८०: ६; ७.
 सं-प्रप्राप्यते मै ४, ३; मैत्रि ४, ३;
 मै १, ४, ९; महा ३, १२; ५,
 ११०; योशि १, १३६; १४०.
 सं-प्र/प्रा(प्र/आ)ष्, -स: गर्भ ४^३;
 प्या ८५; योष् ५९; -सा महा
 ५, ७२; -से त्रिवा २, १११;

a) पा.। "न्दः सू" इति शोषः क. । b) कत. + कस. > वस. । o) पंथि इति अन्वया. । d) अम्भु इति अन्वया. । e) अस्मिन्नाश इति अन्वया. । f) अम्भु, वैपश् यद. । g) वैठ. J.C. "प्रयची" इति। h) वैठ. J.C. सं-प्रति/घ्रा इति। i) आत. उप. अधिकरणे कः । j) सवयुष् इति अन्व. । k) बोधतः इति अन्वया. । प्रयो इति अन्व. । l) निता.। "अप्रां प्रवेतो" इति शोषः क. (त. अन्वया.) । m) "सा ३२ः इति सात. । n) "२ः इति अन्व. । o) सवयुष् इति निता.। यनि. शोषः क. (तु. मैत्रि ५, २) । p) "से इति अन्व. ।

महा ४, ३६; यो १, ४३; भव १,
५७.

संप्रा(प्र-आ)प्य सुं ३, २, ५; शां १,
४; महा ५, १४४; गौड २७^०;
शि ४, ५४.

सं-प्रा(प्र/अ)र्थु>धि

संप्रा(प्र-अ)र्थित- -तः सार २३०:
१७; २५८: ५.

संप्रा(प्र-अ)र्ष्यमान- -नः सं ९.

सं/प्री

संप्रीयमाण-

संप्रीयमाण-मनस- -नसः सार
२४५: १६.

संप्रे(प्र/ई)क्ष्, संप्रेक्षामहे सार
२१९: ३.

संप्रे(प्र-ई)क्ष्य गो ६, १३.

संप्रोक्त- संप्र/वच् द.

संप्रो(प्र/उ)ञ्

संप्रो(प्र-उ)क्ष्य भ १, ४, ५.

सं/प्लु, संप्लवते छां २, ४, १; संप्लवन्ते
छां २, १५, १.

सं-प्लुत-

संप्लुगो(त-उ)दक- -के गो २,
४६.

सं/प्सा

सं-प्साय वृ ५, १४, ८; गा २८^०.

सं/यन्ध्

सं-यद्ध- -द्धम् योशि १, ५९.

संयद्धा(द-आ)सन-मैद्ध- -द्धम्
योच् ११४^०.

सं-यध्य त्रिमा २, ४२.

सं-यन्ध- -न्धः कुं १५; सार २३१:
१३; सांस् ५, ९८; -न्धस्य मत्सू
४, २, १९; -न्धात् मत्सू ३, २०;
४, ३, ३; -न्धे महा ५, ४८.

संयन्ध-प्रय- -यम् तं ५, ३५.

संयन्ध-निघटा- -ता सांस् ५,

९७.

संबन्ध-वर्जित- -तः जाद २, ११.

संबन्ध-संयम- -मात् योस् ३,
४२; ४३;

संबन्ध-सिद्ध- -द्धम् सांस् १,
८९^०.

संबन्ध-सिद्धि- -द्धिः सांस् ५,
२८; -द्धेः सांस् ५, ३८.

संबन्धा(न्ध-अ)नुपपत्ति- -त्तेः
मत्सू २, २, ३८.

संबन्धा(न्ध-अ)भाव- -वात्
सांस् ५, ११.

संबन्धा(न्ध-अ)र्थ- -र्थम् सांस्
५, १०७.

संबन्धा(न्ध-आ)लाप-कीर्तन-
गोष्ठी-मार्गा(र्षि-अ)नुभव-

-वात् सार २२७: १३.

संबन्धित्- -न्धितः शा ३०;
गो १, ३४.

सं/वाघ्

सं-वाध- -धम् इ १५: १०.

सं/वुध्>बोधि, संबोधयेत् गो ३,
४४.

सं-बुद्ध- -द्धः गो ४, १; ३५.

सं-बुद्धि- -द्धिः दत्ता १, ५; ७.

सं-बोद्धुम् यो २, १०.

सं-बोधन- -

संबोधन-द्वय-पुटि(त>)ता-

-ताम् गुपो ४२०: ९.

सं-बोधयितृ- -ता मै ५, ४१^०; मैत्रि
६, ४.

सं-बोध्य पी ४२१: ९.

सं/भञ्

सं-भक्षण- -णेन अशि ४, १५; वट्ट
३१६: ८.

सं-भक्ष्य अशि ४, १५^०; वट्ट ४, ५;
७, १२; वट्ट ३१६: ८.

संभव- सं/भृ द.

संभार- सं/भृ द.

संभाषित- , संभाषित्- , संभाष्य
सं/भृ द.

सं/भाष्>वि, संभाषेते सार २६६:
१७; संभाषेत् नाप ४, ३.

संभाष्येत् शि ७, १६.

संभाष्यते व १६.

संभाषयेत् २कील १२.

सं-भाषण- -णम् ते २, ३०; नाप ५,
१; ६, ३२; सार २३१: २३;
२३५: ४-६; ८; १२; २७३: ७;

-णात् सार २८३: २.

सं-भाषमाण, णा- -णः कौ २, ४;

-णाः, -णान् सार २७६: १; -णौ

सार २८९: १२.

सं-भाष्यमा(ण>)णा- -णा सार

२८७: ६.

सं/भिद्

सं-भिद्य यो १, १९.

सं/भुज्, संभुजते सार २३९: १५;
२८०: १.

संभोक्ष्यते सार २५९: १८;

संभोक्ष्यन्ते सार २३९: १६.

सं-भुजमान- -नाः सार २८८: १४.

सं-भुजान(न>)ना- -नाः सार २७४:
२१.

सं-भोक्ष्यमाण, णा- -णः सार

२४०: ८; -णा सार २८४: ११;

२८६: २१; -णाः सार २६३:

१६; २७३: २१; २८१: १३;

२८३: २३; २८४: ८; २८८: २०.

सं-भोग- -गः महा ५, १७१; -गैः

शि ६, २६०.

संभोग- -घट्ट-चाट्ट-घघन-

-नाय सार २५१: २०.

संभोग-प्राप्ति- -प्तिः मत्सू १, ३, ८.

अ) 'प्रथमाम्' इति आन. । ब) ट. गट्ट. ४८३११। c) 'दृष्याऽऽत्' इति आन्या. । d) 'संबद्धं
सम्' इत्यपि पाठे. । e) ग. र. (पृ०-६, ५८०) घट्ट. 'रस-> -सम्' इत्यत्र 'बोधयितृ' इत्यत्र च यनि. शोधः कर्तव्यः
(पृ. ना. ३) । f) 'वट्टगृह्यानि' इति आन. ।

संभोग-प्रिय- -प्राय गार २६०:

२१.

संभोग-लीला- -श्याम सार
२८७: १८.

संभोग-व्यत>)शी- -ती सार
२३४: ६.

संभोग-वशा- -शाव् गोच ६७:
१६.

संभोग-सुख- -सम् सार
२८०: ६.

संभोगसुख-द>)दा- -दा
सार २२३: ४.

संभोग-स्थान- -ने गार २८४: ७

संभोगिन्- -गिने सार २५१:
१५.

संभोगे(ग-इ)च्छा- -च्छाम् १।
४२४: २२.

सं-भोज(न>)नी- -नी इ १२:
१०.

सं-भोज्य- -न्या: सार २३७: १८.

सं/भू(वपा.)>भावि, संभवति क
२, १, ७; सुं १, १, ७; छां ५, ४, ८,
२; वृ १, ४, ४; १, ५, ८; ६, २,
१-१४; महा ४, ४९; अक्ष १,
२५; ४, ७; त्रिता ४, २६; जाद
६, १५; निह १, ३; ६; १३;
२प्र ३७: २; सार २३९: ८;

संभवन्ति सुं १, १, ७; शां १, ४;
महा ६, १३; सार २६०: ३;
२६३: १४; २६७: ३; २८८:
१०; गु २६; वी १४, ४; सं-

भवसि वृ ६, ४, ९९; कौ २, ११९;
भवनामि गी ४, ६: ८, समभवत्
पे ४, ६; ५, ४; छां ३, १९, १;
वृ १, २, ४; ५, ४, ३; ना ४; वृजा
१, १; वृ १, १; तुवा १; वा १८;

आयो १; १ शील शां; वपू १, २;
सम्...समभवत् वृ १, ४, ४;
समभवत् गोच ६६: १८; सं-
भवेत् ते १, ३८; ५, २२; ६, ८५;
वरा ५, ५; तां २, ४४.

मंथमूत्र सुं १, १, १; मना १, ४९;
नाप ४, ३८९; योच् ७२; अक्ष
३, १९; गु ७४; संभवत्तु: वृ १,
१, २; संभव्यु: सिरा ३८१: ७.

संभावयेत् त्रिता ५, ७.
संभावयिष्यति पा २, ६.
संभावयते ते ५, ४९.

संभव- -व: वृ ३, ९, २८, ५; गौ ३,
२५; ४८; ४, ३८; ७१; शुभा ६; ते
५, ५३; पिं ७; १७; सार २९१:
१७; गौ १४, ३; -वम् भव १, ५;
-वा: त्रिमा २, ६; -वाच् ई १३;
अस् १, ३, २६; ४, १, ७; वे वे
३, १; गौ ३, ९; ४, १६; तां
१, ४.

संभव-व्ययथ-क्रम- -माव् गु
२, २, ५०.

सं-भावित, ता- -सस्य गौ २, ३४;
-ता: सार २८२: ८.
संभावित-जित-रसिकशिरो-
मणि- -गये सार २५२: १.
संभावित-रस-(त>)शा- -शा
सार २६३: ६.

सं-भाविन्-
संभावि-सत्त्वा(रव-ज)जुसं-
धान- -नम् अध्या ३३.

सं-भाव्य वृ ४, ३; राव ३, १; विद्या
४; वृ १, १८; ५, ४४; ६, १७.

सं-भूत- -व: ते २, १, १; छां ५, ९,
२; मैत्रि ६, १९; मना १, ३९;
कौ १, ६; योच् ७२; वृ १, १६;

कठ १३; गौ १३; ४४; नाव
१, १५९; -तम् ऐ ४, १; गौ
३९; -तै: कुं २१.

सं-भूति- -तिम् ई १४; -ते: गौ ३,
२५; -त्या ई १४; -त्याम् ई २२.

सं/भृ
सं-भार- -रम् वृ ६, १३.

संभार-वत्- -वाच् महा ६, ७०.
सं-भृत- -तम् मैत्रि ६, १४; गोच
६९: ४.

सं-भृति-
संभृति-पुण्यासि- -सि अस् ३,
३, २३.

सं-भृत्य वृ ६, ३, १; २ संन्या १५: ३.

सं/भृप(<भस्व)
सं-भृट-
संभृट-बीज-
संभृटबीज-वत् गु २, ३,
१३.

संभोदयमाण- सं/भृज् द.
सं/भ्राज्, संभ्राजते सार २३९: १.
सं/मज्ज्(<मत्स्), सम्...
मज्जन्ति कौ १, ७.
सं/मन्, >मनि
सं-मत- -तम् महा ५, १३२; योरा ३.
सं-मान- -नाच् नाप ३, ४०.
सं-मानव- -नम् नाप ४, ८१; ५,
२९.
सं/मन्त्रि(<मन्त्र-)
सं-मन्त्र्य गौ ४, ३५.
संमर्श-, संमर्शिन- सं/मृश् द.
सं/मामाने
सं-मित- -त: अक्ष ५, १३; -तम् मना
२, ३४९; वृ ५, २-५; महा ५,
१४९; भाषि ८: ९; इ ११: २;
२शिसं २.

संभव-व्ययथ-क्रम- -माव् गु
२, २, ५०.

सं-भावित, ता- -सस्य गौ २, ३४;
-ता: सार २८२: ८.
संभावित-जित-रसिकशिरो-
मणि- -गये सार २५२: १.
संभावित-रस-(त>)शा- -शा
सार २६३: ६.

सं-भाविन्-
संभावि-सत्त्वा(रव-ज)जुसं-
धान- -नम् अध्या ३३.

सं-भाव्य वृ ४, ३; राव ३, १; विद्या
४; वृ १, १८; ५, ४४; ६, १७.

सं-भूत- -व: ते २, १, १; छां ५, ९,
२; मैत्रि ६, १९; मना १, ३९;
कौ १, ६; योच् ७२; वृ १, १६;

कठ १३; गौ १३; ४४; नाव
१, १५९; -तम् ऐ ४, १; गौ
३९; -तै: कुं २१.

सं-भूति- -तिम् ई १४; -ते: गौ ३,
२५; -त्या ई १४; -त्याम् ई २२.

सं/भृ
सं-भार- -रम् वृ ६, १३.

संभार-वत्- -वाच् महा ६, ७०.
सं-भृत- -तम् मैत्रि ६, १४; गोच
६९: ४.

सं-भृति-
संभृति-पुण्यासि- -सि अस् ३,
३, २३.

सं-भृत्य वृ ६, ३, १; २ संन्या १५: ३.

सं/भृप(<भस्व)
सं-भृट-
संभृट-बीज-
संभृटबीज-वत् गु २, ३,
१३.

संभोदयमाण- सं/भृज् द.
सं/भ्राज्, संभ्राजते सार २३९: १.
सं/मज्ज्(<मत्स्), सम्...
मज्जन्ति कौ १, ७.
सं/मन्, >मनि
सं-मत- -तम् महा ५, १३२; योरा ३.
सं-मान- -नाच् नाप ३, ४०.
सं-मानव- -नम् नाप ४, ८१; ५,
२९.
सं/मन्त्रि(<मन्त्र-)
सं-मन्त्र्य गौ ४, ३५.
संमर्श-, संमर्शिन- सं/मृश् द.
सं/मामाने
सं-मित- -त: अक्ष ५, १३; -तम् मना
२, ३४९; वृ ५, २-५; महा ५,
१४९; भाषि ८: ९; इ ११: २;
२शिसं २.

a) संभ्रं इति मंत्रा १, ५, १६। b) 'संविनेव' इति मा ३२, ११। c) तैशा ७, ४, १। d) 'व्यः इति
अध्या.। e) तैशा १०, १, ३। f) भंसाभू इति आन.। g) वृ. गप. ४८०७। h) तैशा ८, १, १। i) भू इति आन.।
j) संसार इति अध्या.। k) समाहारे इत्य.। l) गप. (४९२६) /मज्ज्>मज्जन्ति इत्यत्र सरथ. यनि. शोषः।
कर्तव्यः। m) सन्मा इति पा.१ यनि. शोषः द.। n) तैशाशा १०, ३, ४।

सं/मिल् संमेलक- संमेलका(क-आ)दि- दौ यो २, २६. सं/मिल् सं-मीलि(त>)र्- ता सार २६९:१. सं-मुख- -खम् य ९; छ २९३:१०; -खा: गोच ६८:६; -खे सी३७; राधा १,१९; २,३. संमुखो(ख-उ)म्बुल- -खाम्पाम् रार ३, १. सं/मुह, > मोहि, संमोहय-संमोहय व ४५७: ६; २३. सं-सूद- संमूद-स्व- -स्वम् मे ३, २; मैत्रि ३, २; -स्वाव मे ३, २१; मैत्रि ३, २ संमोह- -ह: मे ३, ५; मैत्रि ३, ५; गी २, ६३; इम् वृ ४, ५, १; मैत्रि ६, ३८; कौ ४, १२; गी ७, २७; -हाव गी २, ६३. संमोह-सौलि- संमोहसौलिन्- -ली मैत्रि ६, २८. १सं-मोहन ^० - -न: रार २, २०; -नाय व ४५६: १. संमोहन-व्याग- -गाय व ४५७: २. १सं-मोहन ^० - संमोहन-कर- --र अञ् ५. सं-मोहयत्- -यन् नाप १. सं-मोहित- -त: गी २, १९.	सं-मोहि(न्>)नी ^० - --नि सार २४४: ६. सं/मृज् सं-मार्जन- -न्म् शि १, २५९ ^{११} ; २६. संमार्जनी ^{११} - -न्या १ योत ३४. संमार्जना(न-अ)जन- -न्म् शि ७, ३५. सं-मृज्य- -वृजा ७, १; म१, ५; का११; नार १०. सं-मृष्ट- -ष्टम् १ योत ३४. सं/मृद् सं-मर्श- -र्श: म २, २. सं-मर्शिन- -र्शिन: ते १, ११, ४ ^१ . सम्यच्, षच्- -सामच्, षच् द. सम्/राज् सम्-राज्- -राट् प्र ३, ४; वृ ४, ३, १; मे ५, ८; मैत्रि ६, ८; मना २, २९९ ^{१०} ; वृ १, ८; सुभा ४; ए ७; वपू २, १; -०राट् वृ ४, १, १; ३, २; ५; ३२; ३३; ४, २३; ५, १४, ८. साम्राज्य- -ज्याय छां २, २४, १३. साम्राज्य-दायि(न्>)- नी- -नी नापू २, १३. सम्राट्-चक्र- -कम् चक्र ७. सं-यत्- -क्षा: अग्य ७. सियत्नेन ^० स्व ६१: ३. सं-यव- -वै: म २, २४. सं-युग्यन्- -न्या छां ४, १, २; ५; ८; -न्यान्म् छां ४, १, २; ५. सं-युज्- -युजा मुं ३, १, १९ ^{१०} ; धे ४,	६९ ^{१०} ; अह १६९ ^{१०} ; नाउ १, १९ ^{१०} ; भव २, २९ ^{१०} . सायुज्य- -ज्यम् छां २, २०, २; वृ १, ३, २२; ५, २३; ५, १३, १-४; मै ४, १; मैत्रि ४, १; ४; मना २, १५९ ^{१०} ; ८० ^{१०} ; कौ १, ३; ५ ^१ ; वृ १, १४; नाव १५; मवि ५७; त्रिवि १, १२; म२, २४; छ २९४: २; बि १४; स३७९: २०. सायुज्य-ता- -ताम् कलि ३; कधु २, १. सायुज्य-स्व- -स्वम् मैत्रि ६, २२. सायुज्य-यद- -यम् वि २२. सायुज्य-मुक्ति ^{१०} - -क्ति: त्रिवि ५, ३; सु १, १, २५. सायुज्यमुक्ति-प्रद- -यम् त्रिवि ७, ४९. सायुज्यमुक्त्या(क्ति-अ)र्थ- -र्थे शु २, ५. सायुज्य-विनियोग- -नाम् मना २, ३३९ ^{१०} . सं-योनि- -नि: सूता १, २२. सर ^० - -नागाम् रुजा १, १७, १८. सं-रक्त- -क्त: नाप ३, १३. सरण- -सरणि- /छ ६. सं-रति- -ति: सार २६१: १६; २६४: ९. सं-रथ, था- -यम् व ४६०: १३९ ^{१०} ; -या: क १, १, २५. सरयू ^० - सरयू-तीर-मन्दार-वेदिका-पङ्क- जा(ज-आ)सन- -ने रार २, ३.
---	---	--

a) असं इति पा.। यनि. शोध: द. (तु. नाव.)। b) तु. गपू. वृ ४१० p। c) भावे इत्। d) अतु-
हाराडभाव: द. (पा ८, ३, २५)। e) तैश्चा १०, २२, १। f) =६९। g) पा.। 'सो(स-उ)श्वा इव' इत्यस्य 'स क्षेत्र'
इत्येवं विपरिणाम्याऽनर्थकस्य सतः पुनःमार्थकताऽऽपादनार्थं मध्ये यकारोऽदायीति शोधोपबन्धः द. (तु. गी ३, ३८)।
h) श्र १, १९४, २०। i) तु. गपू. वृ ६०६ं यदनु यनि. पदविभागः; सैत्र. भा., सा. (तैश्चा १, २७, २) 'समुजोपय->
-यसा' (पुं. प्र३) इत्येकं पदमिति (तु. वैप २, १०४ टि.)। j) तैश्चा १०, १४, १। k) तैश्चा १०, ६४, १। l) भूयताः
पागे. इते ध्यान. प्रथ. द.। m) 'अर्थे वि' इति निता.। (तु. तैश्चा १०, ३३) यनि. शोध: द.। एतदनु गपू.
(३७०१) सत्य. विनि/पुञ्ज->विनि-योग-> -नाम् इत्यत्र यनि. शोध: कर्तव्यः। n) =५। o) म्यु.। =वलय-।
p) श्र १०, ८४, १। q) म्यु.। =नदीविशेष-।

सरल(ल)खा- -खामु त्रितादे, १००.
 सरलस्- -रः छां ८, ५, ३; महा ६,
 ७५; सार २८१: ८; २८६: १;
 -रसः वा १४; -रसाम् गी १०,
 ३४; -रसि महा५, ११९६; अक्ष
 २, ४४; ४, ७१; गोव २०; -रसि
 सि ५, ३७.

सरसि
 सरसि(ज>)जा- -जाम् व
 ४५५: २०.
 सरो-ज- -जे राष्ट्र ४, ४४.
 सरो-क-क(र>)रा- -राम् रा
 २, २४.

सरसस्-
 सरस-व(त>)सी- -० वि वृ ६, ४,
 २७५; मना १, ११५; २, १४५;
 व ४३१: १०; ४३६: ७; २०;
 -वी मना २, ४२५; वृ ४, १५,
 ६; सां १, ४; ५, ४६; राव
 ४, २२; योसि २, ११; ३, ८; ५,
 २३; ६, २२; अक्ष ३; त्रिता ४,
 ३२; ३४; मा १४; यो १, ९;
 जाद ४, ७; १४; २१; वरा ५, २५;
 सर २, १; ५; २; ३; ५;
 ४; ५; ६; ७; ८; ९; १०; ११;
 ३, १; १०; व २२; म ४९;
 १; नाप २, ७; ५, ३४; राधा ४,
 ३; सार २८५: १३; सिशि ३८३:
 ३; गार ४०५: ८; ४०६: १३;
 ११; ४०७: १८; व ४२७: ५;
 तारा ८३: ५; २४; -वीम् मना २,

१५५; ६ ६; यो १, १७; राव ३,
 ७; ८; -न्याः योसि ३, १०; यो १,
 ८; ९; १५; ११; २३; ५३; जाद
 ४, १६; १७; ३५; गार ४०५: ९;
 -न्याम् छाग २३: १; -न्ये व ४६२:
 २१.

सारस्वत- -तः सार ३, १०;
 पा ३, ७; -तम् वृ ८४: १५.
 सारस्वत-प्रसि- -सि:
 सर १, ३.
 सरस्वती-कुहू- -हू सां १, ४.
 सरस्वती-दशश्लो(क>)की-
 -न्या सर १, २.

सं-रस,सा- -सः पा ५, ७; -साः महा
 ३, ४४; पा २, १०; सार २५९:
 १०; २८३: २२; -साम् मना २,
 ६३५; -से पा ७, ८; -सेन ६
 १८: १०.

सं-रस-मु(ख>)खा- -खा सार
 २८२: १२.

सं-रहस्य- -स्यम् अक्षि १४; त्रिता
 २, ६१; जाभा ७.

सं-रहस्यो(स्य-उ)पनिषद्-अङ्ग-
 -ङ्गात् गोच ६९: १४.

सं-राग- -गः अक्षि ७५; नाप ३, १२.

सं-राम- -मः राष्ट्र ४, २२.

सरित्- -तिव गोव २; -रितः मना २,
 ४०५; व ३, २२; ४, ४२;
 -रिताम् व ३, ३१.

सरित्-नद-भुज- -जम् व ४, ३६.

सरित्- -रस्य वा १४.

रस-रूप,पा- -यम् मना २, ४१५;
 -याः सुं २, १, १; खे ४, ५५; पाम्
 मना २, १२, १५; वृ ३, ४;
 नाप ५, २०५; -ये सार २५६:
 १५; -येः सि ६, १२१.

सारूप्य-
 सारूप्य-सिद्धि- -द्धिः सुता
 १, ३.

सारूप्य-ता- -ताम् कलि ३; सुता १,
 २३.

रस-रूप- -यः अक्ष ४, १४; १८; मु
 २, २, ३२; ३५.

सर्व- / सर्वम्.
 सर्व-सर्विणी-सर्विस- / सर्वम्.
 सर्व-घो- -वं० लां २१६: १९; -वं
 गी ११, ४०; -वं: प्र ४, ५; छां १,
 ६, ६; वृ ४, ३, २०; गी २, २;
 मैत्रि ६, १६; मना २, २४५;
 अक्षि १, ९; से ५, ६८; त्रिवि ३,
 २; महा ४, ५६; -वंम् ई १; के
 शां; क १, १, २६; प्र १, १; सुं
 १, १, ३; मां १; ते १, ७, १; ऐ
 ५, ३; छां शां; वृ ३, २, ५; खे ३,
 ९५; सुना १५; ते ६, ३-१;
 नाप ९, २००; मं २, ४, ६;
 -वंस्माव वृ १, ४, १; वृ २, २; सुद
 २; महा ५, ९०; अक्ष २, २५; शा
 २६; -वंस्मिन् छां २, २१, १२; मै
 ५, ६; मैत्रि ६, ६; सुना ५; नाप
 ३, ५४; सिव ३, ३; -वंम् पित्र ३,
 ७; -वंस्व ई ५; मां ६; वृ १, २, ५;

a) व्यु: i) b) अहुलिखित शेषः। c) =तडाव-। वैपश् यद.। d) 'सरित्' इति अज्या.। e) व्यु. अर्थवत्।
 f) बभा. वैपश् यद.। इह =नदीविशेष-, देवीविशेष-, नादीविशेष-, गोपीविशेष- प्रच.। g) अ १, १६४, ४५। h) अ
 १०, ७५, ५। i) तैषा १०, ३४। j) तैषा १०, ४१, १। k) अ ६, ६१, ४। l) अ ५, ४३, ११। m) अ १, ३,
 १०। n) अ १, २, ११। o) अ १, ३, १२। p) अ २, ४१, ३६। q) तैषा १०, ३५। r) 'व्याम्' इति निसां।
 वनि. शोष- (व. निसा. संदि., अज्या.)। s) =६४। t) तैषा १०, ६३, १। u) वैपश् यद.। v) अ ४, ५८, ६।
 w) =मल्ल- (व. नाटी.)। x) =५४। y) तैषा ३, १५, १। z) 'व्याम्' इति तैषा १०, १०, १। a') तैषा १०,
 १०, १। b') सना.। वैपश् यद.। c') अविभक्तिके निर्देशः। d') तैषा १०, १६, ३। e') तैषा १०, १०, ३।
 f') 'अनिः' इति मा ३१, १२। g') व. गण. पृ ३०७। h') सङ्ख 'वांश्च' इति अज्या.। i') सङ्ख सर्वम्
 इति निसा.।

श्वे ३, १७; गी १, २७; मैत्रि
 ६, १४; मना २, ७१५; नृप ४,
 ६; नृवं २, २; -वैस्यै कौ २, ६;
 ह १७७; व ४४३: २३५;
 -वां तै २, ८; १; छां २, २३, ३;
 ३, १२, ६५; वृ २, ४, २; ४, ५,
 ३; शी ५२:७; मार २२०: १,
 -वां: प्र २, ४; ४, २; सुं २, १, ९,
 छां २, २१; ४; वृ ४, २, ४; धे २;
 १६५; मैत्रि ६, ९; जा ४५; मना १,
 ३५; नृ १; प्रा ४, १; -वाणि ई
 ६; ७; के शां; क १, २, १५; तै १,
 ५, २; ऐ ५, २; छां शां; वृ १,
 ४, १६; धे २, ८; मै मैत्रे शां;
 -धान् क १, १, ८; प्र १, ६; मां
 ९; तै २, १, १; ऐ ४, ६; छां २,
 २२, १; वृ १, ४, १; धे ३, १;
 जा २; मना २, ५७५; कौ ३,
 ४५; -वांभि: प्रा १, ६; गु ८४;
 -वांभ्य: जा ४; नाप ३, ७७; पप
 ४१८: १५; या १, १; -वांम् वृ
 ६, ३, ६; सूता २, २४; सार
 २८०: ११; गुषो ४२१: ६;
 -वांय वृ ६, ३, ३; -वांसाम् वृ २,
 ४, ११; ४, ५, १२; वरा ५,
 ४२; सार २२३: २०; शि २,
 २८; मसू ३, ३, ३१; -वांसु छा
 २, ४, १; २; वृ २, ५, १८; योच
 २६; शा १, ४; जाद ४, २४;
 २२ ३५: १०; -वै क १, २,
 १५; प्र २, ४; सुं २, १, ६५; ९;
 तै १, ५, २; छां २, २२, ३; वृ
 १, ४, ६; ७; गी २, १४; कौ १, २;
 शृजा ६, ५; शु ३, २१; शी १,
 ३, १२; पदं ४; २३मं २०; २;

-वैभ्य: ऐ १४, १; छां १, ६, ७;
 वृ ३, ७, १५; मना २, १९५;
 अशि १, ९; मुद्र ४; अध्या ७०;
 गोल ६६; ऊ ६४: ११; सं १९;
 व ४६२: २२५; -वैषाम् वृ १,
 ४, १६; मना २, ६३५; अशि
 ४, १७; कौ २, ६५; वृजा ३,
 १९; नृप २, १३; सुवा १३;
 वसू १८; तै ४, ४४; ध्या ९३,
 १५; -वैषु क १, ३, १२; छां ४,
 १५, ४; वृ ३, ७, १५; हं ५; आठ
 २; अना ३६; अशि ७, ४; वृजा
 ५, १७; नृव ३, २-५; मैत्रे २,
 ९; -वै: प्र ४, ११; सुं २, २, ५;
 छां १, १०, ६; वृ १, ६, १-३;
 अशि ७, ३-५; कौ २, १४;
 नृप १, ३; नाप ६, २२; त्रिवि
 ५, १२; रार २, ६१.
 सार्वे- -वै: पा १, २; -वैम् पा
 १, ३.
 सर्वे-करण- -णानि अ ३.
 सर्वेकरणो(ण-उ)पसंहार-
 सर्वेकरणोपसंहार-स्व-
 -खात् अ ३.
 सर्वे-कर्व- -तां योशि १, १५०; अन्य
 ४; सांस् ३, ५६.
 सर्वेकर्तृ-स्व- -स्वम् महा ६, ५.
 १सर्वे-कर्मन्- -मैणाम् भव २, ६८;
 गी १८, १३; -मंसु जाद ४, ५१;
 -माणि पदं १; नाप ३, ८६; द,
 ३५; २२ ३३: १७; गी ३, २६;
 ४, ३७; ५, १३; १८, ५६; ५७.
 सर्वेकर्म-कर्तृ- -तां नाउ ३, १०.
 सर्वेकर्म-कारि(न् >)णी- -णि
 ष ४५८: १७.

सर्वेकर्म-कृत- -कृत मैत्रे ३, १५;
 पप ४२०: ७.
 सर्वेकर्म-निराकरण- -णम् सं २,
 २, ५; आपू १.
 सर्वेकर्म-निर्मुक्त- -क्त: नाप ७.
 सर्वेकर्म-निवर्तक- -क्त: नाप ४,
 ३८; ५, १.
 सर्वेकर्म-परित्यक्त- -क्त: पप
 ४२०: ५.
 सर्वेकर्म-परित्यागिन्- -गी अन्न
 ५, ९७.
 सर्वेकर्म-फल-त्याग- -णम् गी
 १२, ११; १८, २.
 सर्वेकर्म-फल-प्रद- -दम् पं ९.
 सर्वेकर्म-फला(ल-आ)दि-
 -दीनाम् अन्न २, ६.
 सर्वेकर्म-बहिष्कृत- -क्त: ६
 १६: १५.
 सर्वेकर्म-लोप- -प: नाप ५, १.
 सर्वेकर्म-विनिर्मुक्त- -क्त: अद्वै ८.
 सर्वेकर्मो(मै-अ)भाव- -व: सं २,
 ३, ३.
 सर्वेकर्मो(मै-अ)हं- -हं: का १५.
 २सर्वे-कर्मन्- -मां छां ३, १४, २; ४.
 १सर्वे-काम- -मम् शि ४, ५२;
 -मेभ्य: गी ६, १८.
 सार्वेकामिक- -कम् वृजा ६,
 १२; नृप ५, १; ८; त्रिता २, ३५;
 शि ५, १६; -कान् शि ५, २६;
 -कै: शि ४, २७, ६, १७६; २०३;
 २०५; २१४; ७, ९८.
 सार्वेकामिकी- -कीम्
 शि ६, १६०.
 सर्वेकाम-द- -द: रार २, ५७;
 -दम् शि ३, १०.

a) तैष्या १०, ३८, १। b) 'मिद्रे मा' इति मंत्रा १, ७, १५। अत्र च. =प। c) 'विधा' इति श्रु १०, ९०, ३। d) मा ३२, ४। e) एसा २, १६। f) 'वाणि इति अच्चा। g) तैमा ३, १०, ८, २। h) 'सर्वे' इति शांसा ५, ४। i) श्रु १, १। पुं. नोष: द.। j) तैष्या १०, १०, ३। k) 'वैम् इति अच्चा। l) 'सर्वे रोगाः' इति अच्चा। m) 'वांन् इति अच्चा। n) पा.। o) 'वैतः इति मैमं २, १, १०। p) 'वै इति अच्चा., अच्चा। q) 'वैतः इति तैमा १०, ४५, १। r) तैष्यामा १०, १३। s) 'वैप इति शांसा ४, ६। t) कन.। u) वत.।

सर्वकाम-बु(प>)षा- -या
 मग्नि ५; सार २,८; पू १.
 सर्वकाम-प्रद,दा- -दम् सार ३.
 १; सी ३,१; -दा भाष ३९,७:
 ६; -दाय ४४,५६: ५.
 सर्वकाम-फल-प्रद- -द: सार
 २,२५; -दाय, दशा २.
 सर्वकाम-मय- -य: मैत्रि ६,३०.
 सर्वकाम-युत- -तेन शि ६,
 १२८; २०७; -तै: शि ६,१७५.
 सर्वकाम-समन्वित- -तम् शि
 ६,२६१; -तै: शि ६,६४.
 सर्वकाम-सिद्धि- -दि: आय
 ३२९: १३; १६.
 सर्वकामा(म-आ)घ(दि-अ)न्त:-
 करण-युक्ति-साक्षिन्-
 सर्वकामाघन्त:करणयुक्ति-
 साक्षि-ता- -तया त्रिवि ८,८.
 २सर्व-काम- -म: द्यो ३,१४,३; ४.
 सर्व-काम-सुखा(ल-आ)वह-
 -हम् सार २२१: १४.
 सर्व-कामा(म-अ)र्थ-(-द>)दा-
 -दा: रापू ५,१०.
 सर्व-काम्य-रहस्यपूजा(जा-अ)-
 न्त- -न्ते रा ४२५: २२.
 सर्व-कारण- -०ण अक्ष ५; -णम् मं
 ३,१,३; शां १, ६; जाद ८, ५;
 -णे त्रिवि २,१४.
 सर्वकारण-कारण- -णम् १योत
 १०१; पं १९.
 सर्वकारण-भू(त>)जा- -ता
 मा २^b.
 सर्वकारण-मूल-विराट्-स्व-
 रूप- -य: त्रिवि २,१५^c.
 सर्वकारण-रूप- -पाम्ब्याम् सार
 २४८: ४.
 सर्वकारण-व्यष्टि- -ष्टि: त्रिवि
 १, १.

सर्वकारण-समष्टि- -ष्टि: त्रिवि
 १, १.
 सर्वकारण-हेतु- -बु: त्रिवि १, १.
 सर्व-कारण-कार्यो(र्थ-आ)मन्-
 -रत्ना ते ५, १.
 सर्व-कार्य- -यम् जाद ६, ४८;
 -यांणि लां २१५: १५; -यैषु शि
 ७, २०.
 सर्वकार्य-त्रिवर्जन- -नात् ते ५,
 १६.
 सर्वकार्यो(र्थ-अ)र्थ-कर्म(रु>)-
 का¹- -काम् शि ६, २३९.
 सर्व-कार्यो(र्थ-उ)पाधि-समन्वि-
 (त>)गा- -ता त्रिवि ३, ७.
 सर्व-काल- -लम् शां १, ४; पाशु
 १, २६; पुषो ४२०: ३.
 सर्वकाल- -लम् सिशि
 ३८३: १४.
 सर्वकालिक-
 सावकालिक-सर्व-भय-
 प्रमोक्षण- -ण: इ १०: १३.
 सर्वकाल-स्व- -स्वम् हंपो १९.
 सर्वकाल-व्यवस्थित- -तम् नाउ
 १, २५.
 सर्वकाल-सुख-सष्टि-
 संपूर्ण- -णम् सार २२७: २३.
 सर्वकाल-सुखा(ल-आ)वह-
 -हम् सार २३३: ६.
 सर्वकाला(ल-अ)वाधित- -तम्
 त्रिवि १, ५
 सर्व-किसिपय- -यै: सूता २, २३;
 गो ३, १३.
 सर्व-कीर्ति-
 सर्वकीर्ति-म(य>)वी- -यी सी
 १०.
 सर्व-कृटा(ट-आत्मक>)रिमका-
 -का विद्या १.
 सर्व-कृत्- -कृत् महा ४, ५६.

सर्व-कृत्य- -कृत्य-सार २५५: १०.
 सर्व-क्रोधि-सर्व-विद्या-राज-
 -जाय त्रिवि ७, १५.
 सर्व-कृत्य- -तुभि: रत्न ५, ४; महा
 ६, ८३.
 सर्व-कृत्य-फल- -लम् नाउ ३,
 १०; सं २२.
 सर्व-क्रिया-कारक- निवर्तक- -क:
 नाप ९, २०.
 सर्व-क्रीडा-रस-पूरित- -रिणे
 सार २५२: ६.
 सर्व-छेदि(रु>)नी- -निवध ३२:
 १४.
 सर्व-छेता-विनिर्मुक्त- -क: शि ६,
 २३१.
 सर्व-छेता-हानि- -नि: शां १, ७,
 ४३.
 सर्व-क्षि^०- -क्षिते मैत्रि ६, ३५.
 सर्व-क्षुब्-भ्रमो(म-उ)पनाशि-
 (रु>)नी- -नि सावि १०^d.
 सर्व-क्षुद्रो(द-उ)पद्रव- -वम् प
 ४२८: ६.
 सर्व-क्षेत्र- -श्रेषु सता १, २८; गो
 १३, २.
 सर्व-क्षोभ-कर- -०र अक्ष ५.
 सर्व-क्षोभि(रु>)गी¹- -०णि व
 ४३२: १४.
 सर्व-स्वय-रूप- -या: नापू ५, २२.
 सर्व-ग- -ग: श्वे ६, १७; वृष २, १२;
 वृ ९, ७; नापू ८, ८; महा २,
 ८; ५, ९९; १संख्या २, २१; १भा
 १४; गोपू १९; शि १, १५; नाम्
 सं ३, २, ५; महा. ४, ८०; ११८;
 योशि ३, २०; ६, १०; १४; अक्ष
 ३, २२; ५, २२; वराह, १८; २१.
 सर्व-गण- -णानाम् शि १, ५.
 सर्व-गत,ता- -०त अक्ष ५; -त:
 श्वे ३, ११; वृष २, १२; वृ ५, ११

a) वस. । b) परमका इति निता. सैटि., अख्या. । c) ०लं वि० इति निता. । d) उप. =कर्तविका- ।
 e) उप. <√क्षि (निवास) । f) ०क्षुब्धमोप० इति अख्या ।

नाप ८, १३; भ्रम ५, ७५;
 रह ३९१; जाद १, ८; १०, ३;
 सु२, २, ७५; भव २, ४०; गी २,
 २४; समुं १, १, ६; श्रे ३, २१;
 वृत् ९, १०; महा ४, ८६; ९१;
 पाशु २, २९; शं २-३, १; पै ४,
 १३; रह ३२; ३९१; सु २,
 २, ७३; भव ३, ४; गी ३, १५;
 १३, ३२; तस्य त्रिवि २, १२; ता
 अक्ष ४, ४३; अक्षि २९; मु२, २,
 ४९; गु ४७; तं महा ४, ११५.
 सर्वगत-त्व- -त्वम् वस् ३, २,
 ३७.
 सर्वेनाथ- -न्धः छां ३, १४, २; ४.
 सर्वेनाथ- -त्रेण रुजा १, १४;
 -त्रेषु त्रिमा २, ८१; शां १, ४;
 योशि १, १२२.
 सर्वेनामि(न>)नी- -नी शां १, ४.
 सर्वेनुण- -णम् वि २०.
 सर्वेगुण-संपन्न- -धाय मैत्रि ६,
 २९.
 सर्वेगुरु- -रुः स्या ६.
 सर्वेगुह्यतम- -मम् गी १८, ६४.
 सर्वेगोचर- -रम् कठ ३२.
 सर्वेगोप्य- -प्यम् ते ५, ४९.
 सर्वेग्रन्थि- -न्धीनाम् छां ७, २६, २.
 १सर्वेग्रह^b- -०ह लां २१४; १६.
 २सर्वेग्रह^c- -हम् लां २१५; १४;
 २१६; २; -हान् व ४२८; ३.
 सर्वेग्रह-निवार(ण>)णी- -णी
 व ४५८; १५.
 सर्वेग्रहास- -सः प्रवि ११०; -सम्
 वृत् ५, ३.
 सर्वेग्रह- -ग्रम् पिता ३, १८.
 सर्वेचिन्ता- -न्ताम् नाद ४१; शां
 १, ७, २०; वरा २, ४४; ८३.
 सर्वेचिन्ता(न्ता-अ)वधि- -धिः
 तै ५, १.

सर्वेचिन्ता-वियजित- -तः नाद
 ५१.
 सर्वेचिन्ता-समुत्थित- -तः गी
 ३, ३७
 सर्वेचेतन- -नाः शि १, १०.
 सर्वेचेष्टा-वियजित- -तः नाद ४१.
 सर्वेचेतन्य-भोग- -धायक-
 -काम्याम् सार २४७; १७.
 सर्वेचेतन्यमाप्रव- -त्वात् ते ६,
 ३०^d.
 सर्वेजगत्- -गतः शि ६, १५६.
 सर्वेजगत्-पति- -तिः शि १,
 १४.
 सर्वेजगद्-धि(<हि)त- -तम्
 अशि ३, ५१^e.
 सर्वेजगत्-मोहन- -नाय त्रिवि
 ७, ४६.
 सर्वेजन- -नम् व ४२९; ८; १३;
 १७; २२; ४३०; ५; १०;
 ४५७; ६.
 सर्वेजन-प्रिय- -याय व ४५७; ५
 सर्वेजन-मनो-हारि(न>)णी-
 -०णि व ४३५; ३.
 सर्वेजन-वर्षा-क(र>)री- -०रि
 व ४३५; २.
 सर्वेजन-विश्वजन-शाश्वजन-वद्य-
 जन-सर्वेजन- -न्त्य लां २१६;
 १७.
 सर्वेजन-वैरि-मुल- -खम् लां
 २१६; १४.
 सर्वेजन-हृदय- -न्यम् व ४३४;
 २२.
 सर्वेजना(न-अ)न्तर-स्थ-
 -स्थम् ध्या २४; योशि ६, २०.
 सर्वेजन्तु- -न्तुपु योचू ७४; -न्तनाम्
 वरा ५, १९; शि ६, २२८.
 सर्वेजन्तु-प्रकाशि(र>)नी-
 -नी कृ २५.

सर्वेजन्तु-रुत-क्षान- -नम् शां
 १, ७, ५२.
 सर्वेजन्म-कृत- -तम् अता १९.
 सर्वेजव- -वेन के ३, ६; १०.
 सर्वेजित्- -जितः कौ २, ७
 सर्वेजीव- -वेभ्यः कठ १; कथु ३,
 १; -वेपु योचू ७३; योशि १, ५९.
 सर्वेजीव-भय-प्र(द>)दा-
 -दा पै २, १४६.
 सर्वेजीव-वध- -धाय म२, २२.
 सर्वेजीवा(व-अ)न्तर-स्थित-
 -तः नाप ८, १२.
 सर्वेजृमिणी-शक्ति- -क्तिः भाय
 ३९६; १४.
 सर्वेज्ञ- -०ज्ञ शु १, ९; -ज्ञः प्र ४,
 १०; ११; सुं १, ९; २, ३, ७;
 मां ६; मैत्रि ७, १; वृष्ट ४, ६;
 वृत् १, ९, ९, १३; सुवा ५; सु१,
 ६; नाप २; ८, १४; ९, २०; त्रिवि
 १, १; राठ ३, १; शां २, १; पै
 १, ८; योशि १, १४८; अथ्य ४;
 २संन्या १५; ६; रह ३३; शा
 ३०; जावा ९; १३; शि १, १५;
 ६, ११३; १३२; वठ १, ११;
 -ज्ञम् गौ ३, ३६; ४७; वृत् ५, ३;
 १योत २६; योशि ३, २०; हे१;
 -ज्ञस्य सर ३, १५; -ज्ञाः नाप १.
 सर्वेज्ञ-ता- -ता गौ ४, ८९;
 १संन्या २, ४६; भव २, ३३; -ताम्
 गौ ४, ८५.
 सर्वेज्ञ-त्व- -त्वम् योशि ३, २५;
 सर ३, १५; गुषो ४२१; ४.
 सर्वेज्ञत्व-संयुक्त- -कम् मैत्रि
 ६, ३८.
 सर्वेज्ञस्था(त्व-आ)दि-
 -दिभिः सर ३, १७.
 सर्वेज्ञस्थादि-कृष्णण-
 -णः अथ्या ३०; पै ३, १.

a) सट्टम् °तः इति पा. १ यनि. शोषः द. (द्र. गप, पृ६६४a) । b) उस. । c) कस. । d) °सर्वं चैत° इति अथ्या. । e) सर्वं ज° इति निसा. १ यनि. शोषः द. (द्र. अथ्या; वैतु. ध्यान., नादी.) ।

सर्वज्ञ-बीज--जम् योत् १, २५.
 सर्वज्ञ-शक्ति--क्तिः आध ३९७:
 १६.
 सर्वज्ञा(ज्ञ-धा)दि-दशाब्-कम्
 आय ३९७ : १५.
 सर्वज्ञा(ज्ञ-धा)दि(दि-अ)न्तर-
 द्वाार-ग--देवता--ताः भा
 २११०.
 सर्वज्ञे(ज्ञ-ई)ना--तः पै १, ३०.
 सर्व-ज्ञात-
 सर्वज्ञात-व--व्यम् योत् ३, ५०.
 सर्व-ज्ञान--नम् रुह १६; वपु १,
 ४; नेपु योसि १, ६९.
 सर्वज्ञान-कारिन्--नी फालि
 ४०२ : २१.
 सर्वज्ञान-प्रकाश--शः तेंदं, ६८.
 सर्वज्ञान-भद्र--दः नापु ४, ३८.
 सर्वज्ञान-म(य>)यी--नी आय
 ३९७ : १८.
 सर्वज्ञान-विमूढ--वान् गी ३,
 ३२.
 सर्वज्ञानिन्--निनाम् रु २२.
 सर्व-ज्यानि--निम् वृ १, ५, १५.
 सर्व-ज्योष्ठ--ष्ठः पप ४२० : ९.
 सर्व-ज्योतिष--तिः मवा ११.
 सर्वज्योति(इतो)-रस--सः व
 ४६२ : २.
 सर्व-ज्वर-विनाश--नाय वपं
 ३१२ : १३.
 सर्व-ज्वरो(र-उ)घाट(न>)जी-
 नीय् व ४३३ : २.
 सर्व-तर्व--वय् ते ३, ५१; त्वैः
 श्रे २, १५.
 सर्वतर्वा(रव-आत्मक)>-
 रिमका--के अल १५.

सर्व-तन्त्र--न्त्रम् ते ३, ६८; --त्रेपु
 सं १, ३, ५; शो १, ७, १५.
 सर्व-तप्त(>) क १, २, २१; सुं ३,
 २, ५; तै १, ४, ३; ४, १, १; वृ ६,
 ४, २३; मैत्रि ६, १७; वृ २,
 १२; ५, ७; मयि १; ते ५, ६०;
 ऋवि ३३; नाप १; २; ७; त्रिवि
 ७, ३६; १संन्या २, १; अव्य २;
 अत्र ५, ६३; अध्या १३; कुं २७;
 दे १०; त्रिता ४, ८; ग ४; १६;
 सु २, २, ७४; चा २; २३ ३३ :
 १४; शि ६, १५५; ७, ७५; व
 ४३८ : १३; ४३९ : १; १०; २१;
 ४४० : ८; १८; ४४१ : ६; १६;
 ४४२ : ४; १५; ४४३ : २; १३;
 ४४४ : ५; १५; ४४५ : २; १४;
 ४४६ : १; १२; २२; ४४७ : १०;
 २१; ४४८ : ९; २१; ४४९ : १६;
 २३; ४५० : ७; १४; २१; ४५१ :
 ७; १४; २१; ४५२ : ७; १४; २२;
 ४५३ : ५; ११; १५; २३; ४५४ :
 ६; १४; २०; ४५५ : ४; १६; २२;
 ४५८ : १२; ४६५ : १६; वट
 ३, १५; गी २, ४६; ११, १६; १७;
 ४०.
 सर्वतः--पाणि-पाद--व्यु श्रे ३,
 १६; गी १३, १३.
 सर्वतः-पाणिपादा-
 (द-अन्त)>न्वा--न्ता गु ४८६.
 सर्वतः-पृष्ठ--ष्ठेपु छं ३, १३, ५०.
 सर्वतः-श्रुति--
 सर्वतःश्रुति-मय्--मत् श्रे
 ३, १६; गी १३, १३.
 सर्वतःश्रुतिमती--ती
 गु ४८.

सर्वतो(तत्-अ)क्षि-दिरो-मुख,
 खा--खम् श्रे ३, १६; गी १३,
 १३; खा गु ४८६.
 सर्वतो-धी(र>)रा--रा त्रिता
 २, ३२.
 सर्वतो-मद्र--द्रः वपु १, ४.
 सर्वतो-मुख--खः श्रे २, १६५;
 अशि ५, २; वृ ४, ४; ५, १;
 २; वा २५; वट ३१६ : २३५;
 खम् वृ २, ६; १२; वृ ५, २;
 ६, १; ऋवि ३४; त्रिवि ७, ४०;
 शो ३, १; योशि ६, ६०; अव्य २;
 अध्या ६१; वपं ३१२ : १०; व
 ४५७ : १२; खस्व त्रिता ४, १९.
 सर्वतोमुखी--खी गार
 ४०७ : २०.
 सर्वतोमुख-व--व्यात् वृ ४
 ७, १.
 सर्व-ताति--तिम् सू २४५.
 सर्व-तीर्थ--थानि तुल ७११; रि
 ५, ३६; यैपु अव्य ७.
 सर्वतीर्थ-फल--लम् म ११;
 रुजा ३, १; रु २६; सं २३.
 सर्वतीर्थ-स्वरूप--वः मैत्रे ३,
 १२.
 सर्व-तेजः-प्रकाशा(श-आ)त्मन्--
 त्मा ते ५, ३.
 सर्व-त्यागिन्--नी नाप ५, १;
 १संन्या २, १३.
 सर्व-त्र गौ ४, ८९; हं २१; रुजा ४,
 ३५; वृ ४, ४; ते ३, ३८;
 प्या ८; ऋवि ३८; १योत २०;
 नाप ३, ८६; पठं ४; १कौल ४:
 ११; २कौल ५; १०; गी ६, २९.

a) 'ज्ञस्ववी' इति संदि. पाठे. । b) 'वेज्ञस्वव्य' इति निसा. अश्या. पा.१ यनि. शोधः द. (तु. 'ज्ञापाः
 अन्तर्दशारदेवताः इति तात्त्रि.) । एतदह गप. (पृ ३९२) सस्य. 'देवता->ताः' इत्यय यनि. शोधः कर्तव्यः ।
 c) पा.१ यनि. शोधः द. । d) गप. (पृ ५०३) सस्य. 'पाणिपादान्ता->न्ता' इत्यय यनि. शोधः कर्तव्यः । e) गप.
 (पृ ५२४) सस्य. 'पृष्ठ->ष्ठेपु' इत्यय यनि. च 'विश्रुता-पृष्ठ->ष्ठेपु' इति च शोधः कर्तव्यः । f) गप. (पृ ७)
 सस्य. 'अक्षिदिरोमुख->खा' इत्यय यनि. शोधः कर्तव्यः । g) मा ३२, ४ । h) विश्रुतो इति अश्या. ।
 i) वैप १ य. । j) श्रु १०, ३६, १४ । k) सर्वे इति पा.१ यनि. शोधः द. (तु. गप. पृ ५८०) ।

सर्वत्र-य- -गः गी ९, ६; -नाम्
अन ५, ७८; जाद १०, ९; गी
१२, ३.
सर्वत्र-(स्य>)स्था- -स्था गु
४७.
सर्व-था गौ ४, १९; ते ६, ९९; १ योत
५८; नाप ३, ६५; राट ४, १३;
महा ५, १४; १ संन्या २, ११^०;
शि ७, ३०; भव २, ६१; गी ६,
३१; १३, २३; योसू ४, २८.
सर्वथा-विपय- -यम् योसू ३,
५५.
सर्व-द- -दम् व ५, ६.
सर्व-दया-मूर्ति- -०ते सावि १०.
सर्व-दहन- -नः सुवा ९.
सर्व-दा ते १, ४, २; छां २, ९, १; वृ
१, ५, १, २; गौ २, २८; हं ६; कै
२, ५; अना ३६; बृजा ५, १२;
नृप १, ७; नृज २, ११; मैत्रे ३,
१५; पहं १^०.
सर्वदा(दा-अ)द्वैता(त-आ)-
नन्द-रूप(>)पा- -या विद्या ४.
सर्वदा(दा-आ)नन्द-स्वानु-
भवै(व-ए)रु-पूर्ण-हृदय- -यः
नाप ४, ३८.
सर्वदा-शास्त्रि- -न्ति:मं १, १, ३.
सर्व-दान- -ने: शि ५, ३८.
सर्व-दारिद्र्य-शमन(>)नी- -नी
व ४५८ : १६.
सर्व-दिग्ग-देह- -मध्य- -ध्ये अहं
१३.
सर्व-दीक्षित- -तः हंपो १०.
सर्व-दुःख- -खम् ते ५, ९७;
-खानाम् गौ १, १०; गी २, ६५.
सर्वदुःख-प्रद- -दम् अन १, ३१.
सर्वदुःख-बहिष्कृत- -तः शवि
५८.

सर्वदुःख-रक्षण(>)नी- -०नि
व ४३५ : ३.
सर्वदुःख-विनाशन- -नाय लां
२१४ : २१.
सर्वदुःख-विमोचि(न् >)नी-
-नी आय ३९७ : ७.
सर्व-दुरित- -तम् व ४६६ : २.
सर्व-दुर्ग- -र्गाणि गी १८, ५८.
सर्व-दुर्गा-मनु- -नो: काठि ४०३:
२१.
सर्व-दुष्ट- -ष्टानाम् पी ४२१ : ९;
व ४३६ : १३.
सर्वदुष्ट-प्रशमन- -नम् पं ५.
सर्व-दुष्ट-दैत्य-दानव-संहरण-
-णाय नाउ २, ८.
सर्व-दुष्ट-प्रदुष्ट- -ष्टात् व ४४९ : ९.
सर्व-दुष्ट-सृग-वश-क(>)री-
-०रि व ४३५ : ४.
सर्व-दृशू- -दृशू गौ १, १२; ४, ८४.
सर्व-दृश्य-रहित- -तम् वरा ३, ६.
सर्व-दृश्य-विहीन- -नः ते ३, १५.
सर्व-देव- -वस्य ऋवि ६२; वृह १७;
-वाय व २, २; वेपु वृह २; वै:
नाप ९, १७; सी ३७; महा ४,
७१; सुसु १७१^०; रा ४२३ : १४.
सर्वदेव-नमस्कृत- -तः रा
४२४ : १७.
सर्वदेव-नमस्यत्- -स्यन्तम्
सूता १, २८.
सर्वदेव-प्रकृष्ट- -ष्टम् सिशि
३८० : ३.
सर्वदेव-मय- -यः नाप ८, १; वृ
१६; सूता १, १८; तारा ८३ : ८;
-यम् पं १५.
सर्वदेवमयी- -यी सी १०.
सर्वदेवा(व-आ)त्मक- -कः रवृ
४; -कम् वृह २४.

सर्वदेवात्मिका- -०क अत्र
१५.
सर्वदेवा(व-आ)त्मन्- -त्मा राउ
४, ५; व ४, ४८.
सर्वदेवा(व-आ)धिदैवत- -तम्
सूता १, २८.
सर्वदेवा(व-आ)धिपत्य- -त्यम्
वपु १, ६.
सर्वदेवा(व-आ)धिराज- -जे
सिशि ३८३ : ९.
सर्व-देवता- -ता व १३; -ता: योशि
६, २९; रुजा २, १९; सूता १,
३५; ६, १३.
सर्वदेवत्व, त्या- -त्यम् वृ १, २, ७;
-त्या अनि ५, १३; -त्या: आत्र १०.
सर्व-देवर्षि-संसद्- -सदि शु १, ७.
सर्व-देव-वेद-योनि- -नि: अ १.
सर्व-देश- -शेषु त्रिभा २, ११.
सर्व-देशिक-वाक्यो(क्य-उ)क्ति-
-क्ति: ते ५, ५४.
सर्व-देह- -हेपु जाद ४, २९; लि
३११ : ४.
सर्व-देहिन्- -हिनाम् सी ७; श
१५^०; राउ २, ३; योशि १, १६८;
५, ४; वरा २, २४; शि १, १२;
३०; ५, १५; ७, ११८; विद्या १;
भव ४, ९; गी १४, ८.
सर्व-दैवत- -तै: सी ३७^{१०}.
सर्व-दैव(ल्य>)त्या- -त्या २ प्र
३५ : १९^०.
सर्व-दोष- -पा: योशि १, १२८;
-पात् ते ६, ३०^{१०}; -पै: योशि १,
१६.
सर्वदोष-तस(>)वर्ग २, १८.
सर्वदोष-प्रभेद- -दात् ते ५,
५०.
सर्वदोष-रहित- -तः व ३१, १७.

a) °दा इति अच्चा. । b) 'सदा' इति निरा., अचान. । c) उप. = १मनु- । d) तु. गपु. वृ ६४७३ ।

e) °देवा° इति अच्चा. । f) °दे° इति अच्चा. ३ यनि. शोधः द्र. (तु निरा.) । g) °दे° इति गोत्रा. (१, १, २५), अशि.
(५, १२) । h) °पः इति निरा. अच्चा. पा. १ यनि. शोधः द्र. । i) °दाः इति अच्चा. ।

सर्वदोष-विनिर्मुक्त- -कम् शि
३, ११.
सर्वदोष-विषयित्व- -ता: योशि
१, ४७; -ते अना १८.
सर्वदोष-समुद्भव- -यम् योशि
१, १३४.
सर्वदोष-इन्- -हा १ योत ६४;
वरा ५, ७१.
सर्वदोष-हर- -०० र वा ५.
सर्वदोषा(व-अ)प्रहारि(न्-)>
णी- -णी महा ५, ११०.
सर्व-दृष्ट- -ष्टा ऋषि ११०; -ष्टारम्
वृत् ५, ३.
सर्व-दृष्ट- -दृष्टैः नाप ३, ५२.
सर्वदृष्ट-क्षय-क(र>)री- -री
व्याय ३९६; २१.
सर्व-द्वार- -रम् जुष्ट; -नागि गी८,
१२; -रेयु गी १४, ११.
सर्वद्वार-निरोधन- -वात् योशि
६, १५.
सर्व-धर्म- -नांणाम् शा १०; -सांद्
नि ५२; वार २८०:०; गी १८,
६६; -मैषु गी ४, ६०; हं २०.
सर्वधर्म-गुण-क्रम- -मात् महा
५, १६१.
सर्वधर्म-ज्ञ- -ज्ञं हं १.
सर्वधर्म-रथाग- -गात् सार
२९०: ६.
सर्वधर्म-परिस्वाग-पाप- -पात्
पलि ३.
सर्वधर्म-म(य>)वी- -वी सी
१०.
सर्वधर्मा(मै-अ)तिरिक्त- -क्त:
सार २८७: १६; -क्ता: सार
२७८: १४; -क्ताय सार २४७:
११; १३.
सर्वधर्म(मै-अ)प्रपत्ति- -त्ते: ऋष
२, १, ३७.

*सर्व-धा-
सर्वधा-तम- -मम् छां५, ३, ७५.
सर्व-धातु-संयुक्त- -कम् शि ६,
६२.
सर्व-धान्य-शिखर- -रै: शि६, ६८.
सर्वे-धी-वृत्ति-साक्षिन्- -क्षिणे
वम् १.
सर्वे-धी-साक्षि-भूत- -त्तम् शु १,
१८.
सर्वे-ध्यान-योग-ज्ञान- -नानाम्
अ ३.
सर्वे-ध्यान-विवर्जित- -ता: ते ५, ३.
सर्वे-नमस्य- -स्य: रया ६.
सर्वे-नघन- -न: सुबा ५६.
सर्वे-नाडी- -डीनाम् वरा ५, ४४.
सर्वे-नाद-
सर्वेनाद-मय- -य: ते ५, २०.
सर्वेनादा(द-अ)न्तर- -र: ते ५,
७१.
सर्वे-नाद-कला(ला-अ)तीत- -त:
ते ५, ४.
सर्वे-नामन्- -मानि योशि ४, ६.
सर्वे-नाश- -शे नाप ३, ५०.
सर्वे-निमित्ता(त्त-अ)नपेक्ष- -क्षम्
योषु ३, ३४.
सर्वे-नियन्त- -न्ता त्रिवि १, १.
सर्वे-निरामय-परिपूर्ण- -णे.वा १८.
सर्वे-निरोग्य- -धत्त योसु १, ५१.
सर्वे-निर्वैतक- -क: त्रिता १, १.
सर्वे-निर्वाण-दीक्षित- -ता: कामि ६.
सर्वे-निवर्तक- -क: त्रिवि १, १.
सर्वे-निवृत्ति- -त्ति: रा ४२४: १६.
सर्वे-निवेदन- -नम् व ४, १३.
सर्वे-निश्चय- -या: महा २, ५८.
सर्वे-नि(हा>)ष्ठ- -ष्ठम् पा १, ८.
सर्वे-नि:स्पृह- -ह: वाप ३, ३४.
सर्वे-न्यास-कारिन्- -री हंषो २०.
सर्वे-पदार्थ- -र्थानाम् महा ५, ४७.

सर्व-परिपामिन्- -गो अज ५,
११६.
सर्व-परिपूर्ण- -र्णै: त्रिवि ४, १४;
८, १५; -र्णम् त्रिवि १, ५; -र्णस्य
त्रिवि २, १३; ६, २३.
सर्वपरिपूर्ण-ज्ञान- -नेन मं २,
२, ४.
सर्वपरिपूर्ण-पुरीयातीत-ब्रह्म-
भूत- -त्त: मं २, ५, १.
सर्वपरिपूर्ण(र्ण-अ)द्वैत-परमा-
नन्द-लक्षण-पर-ब्रह्मन्-
-ह्यणि त्रिवि ८, ५६.
सर्वपरिपूर्ण(र्ण-अ)नन्त-चिन्म-
य-स्तम्भा(म्भ-अ)कार- -रम्
त्रिवि ४, १.
सर्व-पर्वद्- -र्वसु शि ७, ७५.
सर्व-पल्लव-स्वरूप- -पाय व ४५६:
१४.
सर्व-पातक- -केभ्य: वा ३७; -कै:
वरा ४, ४३.
सर्वे-पाप- -पम् कै १, १; ह १; वि
१; स ३७९: ४; -वानाम् शि ५,
१२; -पानि जाद ७, १०; वरा
५, ४१; -पेभ्य: व २१; शो ३,
४; योशि ६, ४४; शु ८४; गी
१८, ६६; -पै: १ योत १, ९०;
२ योत १, १; त्रिवा २, १०२; योचु
३४; ह १७; २५; ह्यार १, ८;
वि २१; सुहा २, २१; शि ६,
११४; हं १४; काति ४०३: १;
शु ५९; गी १०, ३.
सर्वपाप-क्षय-क(र>)री- -री
व ४३२: २२.
सर्वपाप-नादाक- -क: म १, ८.
सर्वपाप-निर्मुक्त- -का: शि ५,
२८.
सर्वपाप-निवृत्ति- -त्ति: मं १,
२, ६.

a) *राम् इति J.C. । b) *वैवेदे' इति निवा., आन. । c) श्र ५, ८२, १ । d) *यनम' इति अथ्या. ।
e) सर्वानन्द' इति अथ्या. । f) *क्षणे प' इति निवा. ।

सर्वपाप-नि(घा>)घ- -घः स्व
 ६१:८.
 सर्वपाप-प्रणाशन- -नम् शां १,
 ३,११; यो १, ५; जाद ३, ११.
 सर्वपाप-विनाश-द्वार- -द्वारा
 अता ५.
 सर्वपाप-विनिर्मुक्त- -क्तः शु ३,
 २३; जाद ६, १९; शि ७, ४२.
 सर्वपाप-विशुद्धि- -द्वये जाद
 ८, ८.
 सर्वपाप-विकोधि(रु>)नी-
 नी जाद ८, ३.
 सर्वपाप-हर, रा- -रम् शि ५, १;
 -रा आथ ३९७: २१.
 सर्व-पाप्मन्- -पमानम् वपू २, २.
 सर्व-पालक- -कः त्रिवि १, १.
 सर्व-पाश- -शैः श्वे १, ८; २, १५;
 ४, १६; ५-६, १३; नाप ९, ७;
 १०; यु ७१; भव २, ५; ४९.
 सर्वपाशा(श-अ)प्रहानि- -नि:
 श्वे १, ११.
 सर्व-पीठ-गता(त-अ)निल- -लः
 सौ २, ९.
 सर्व-पुण्य-कारिन्- -री कालि
 ४०२: ४.
 सर्व-पुरुष- -पः नाउ १, १७, गार
 ४०५: १९.
 सर्व-पुरुषार्थ-सिद्धि- -द्धिः अता
 १९; द्व १६.
 सर्व-पूजा- -जाम् वउ ६, २४.
 सर्व-पूत- -तः वृजा ८, १; नृपू ५,
 १२; महाद, ८३; वडु ३१८: ५.
 सर्व-पुर्ण-स्वरूप- -पः मैत्रे ३, १२.
 सर्व-प्रकार-रूप- -पः मैत्रे ३, २१;
 ते ३, ३०; ६, ६०.
 सर्व-प्रतीत- -तम् शां १, ७, २२.
 सर्व-प्रपञ्च- -अः योशि ४, ३; -अम्
 गुअ ७.
 सर्वप्रपञ्च-अम-वर्जित- -तः ते
 ५, ६३.

सर्वप्रपञ्चा(म-आ)धार-गर्भित-
 -तः नाप ८, १; तु १६.
 सर्व-प्रमाण-सिद्ध-
 सर्वप्रमाणसिद्ध-स्व- -वात्
 सांका ४.
 सर्व-प्रयत्न- -त्नेन १योत ८१;
 १संन्या २, ७६; पत्र ३, १४; यो
 २, १४; योशि ६, २३; जाद १,
 २५; ६, २०; इ १९: ६; वि १७;
 १८.
 सर्व-प्रवर्तक- -कः त्रिवि १, १; -का:
 त्रिधा २, ११.
 सर्व-प्रवृत्ति-
 सर्वप्रवृत्ति-सर्वहेतु-निमित्तक-
 -कम् त्रिवि ६, २०.
 सर्व-प्राणि-जीव- -वान् मुद्र २.
 सर्व-प्राणिन्- -णिनाम् सि १८.
 सर्वप्राणि-बुद्धि- -द्धिषु ससा १,
 २६.
 सर्वप्राणिबुद्धि-स्थ- -स्थः
 ससा १, २६.
 सर्व-प्राप्ति- -प्तः सांस् ५, १०४.
 सर्व-प्रायश्चित्त-
 सर्वप्रायश्चित्तीय- -ये प्रा १, ६.
 सर्व-प्रियं-क(रु>)री- -री आथ
 ३९७: ४.
 सर्व-प्रि(व>)या- -या सौ ३, १.
 सर्व-प्रेमा(म-आ)स्पद- -दः त्रिवि
 १०८; -दम् नृउ ५, ३.
 सर्व-फल- -लम् त्रिता ३, ३.
 सर्वफल-प्रद- -दम् अल्ल ५.
 सर्व-बन्ध- -न्धाः त्रिवि १, २; ५,
 ७; ८, १८; -न्धैः कै १, १७;
 वरा २, ३२.
 सर्व-बल-प्रद- -दम् अल्ल ५.
 सर्व-बान्धव- -न्धैः शि २, ३१.
 सर्व-बीज- -जम् नापू ४, १३;
 -जानि ११व ४३८: १९; ४३९:
 ६; ११; ४४०: ३; १३; ४४१: २;

११; २२; ४४२: १०; २१; ४४३:
 ७; १७; ४४४: ११; २१; ४४५:
 ९; १९; ४४६: ७; १८; ४४७:
 ५; १६; ४४८: ४; १५; ४४९:
 ३; १३; २०; ४५०: ४; ११; १८;
 ४५१: ४; ११; १९; ४५२: ३;
 ११; १९; ४५३: ३; ८; १४; २१;
 ४५४; ३; ११; १७; ४५५: १; ८.
 सर्व-प्रक्ष-मात्रा(म-अ)वलोकन-
 -नम् अध्या १३.
 सर्व-भक्ष- -क्षः १अव ६.
 सर्व-भक्षया(द्वय-अ)क्ष-पाना-
 (न-आ)घ- -घैः शि २, २८.
 सर्व-भय- -यात् व ४३४: ३.
 सर्वभय-निर्मुक्त- -क्तः वपं
 ३१३: ४.
 सर्व-भवन- -नम् ते ६, १०३.
 सर्व-भस्मन्- -स्म क ८.
 सर्व-भाव- -वः ते ५, ५९; -वान्
 अल्लि २४; -वानाम् गी १, ६;
 १०; २, १; -वेम म २, २०; यो
 २, ४; गी १५, १९; १८, ६२;
 -वेभ्यः महा ६, ५६; अथ ५, ५५;
 -वेषु महा ६, ४; ५२.
 सर्वभाव-परित्याग- -गः मैत्रि
 ६, २५.
 सर्वभाव-स्वरूपक- -कः ते ३,
 ३६.
 सर्वभावा(व-अ)त्म-भावना-
 -नाम् महा ४, ८; अथ १, ३२.
 सर्वभावा(व-अ)धिष्ठातृ-
 सर्वभावाधिष्ठातृ-स्व- -स्वम्
 योम् ३, ५०.
 सर्वभावा(व-अ)न्तर-स्थ-
 -स्थाय १संन्या २, २५.
 सर्वभावा(व-अ)न्तर-स्थि-
 (त>)ता- -ता अथ १, ५२.
 सर्व-भाव-वदा(द-अ)तीत- -तम्
 १योत ९; योशि १, ७.

a) ० वं ० इति निघा. । b) लि ५, ८४, १ ।

सर्व-भुज्- -भुज् मैत्रि ७, १.
 सर्व-भूत- -सम् ते ३, ५१; ए १३;
 पा १०, ४; -तात्त्वम् गी १, २२;
 मैत्रि ४; मना १, १०^५; २, ११^५;
 २८^५; अ ३, १५; नृप १, १२;
 ससा ४; शु २, ५; ते १, २४; अवि
 ११; नाप ४, ३६; शां ३, १; योशि
 ३, १८; अज्ञ ४, २७; ५०; वर ८;
 गोड ६७; क १९; १ प्र ३१;
 २०; सार २३० = १४; रत्तिसं
 ३६९; वि ४, १७; ५, ५०; व
 ४६२ = १३९; व ५, ३८; गी
 २, ६१; ५, २९; ७, १०; १०, ३९;
 १२, १३; १४, ३; १८, ६१; तानि
 छां ८, १५, १; मैत्रि ६, ३; कै १,
 १०; मना २, ७५^५; नाप ४,
 २२; योशि ४, ५; अज्ञ १, ३८;
 आर्ये ८ = १८; गी ६, २९; ७,
 २७; ७, ४; ७; १८, ६१; -तेभ्यः
 मै ५, ८; मैत्रि ६, ८; आर ३;
 मना २, ६७^५; नाप ४, ३८; ५,
 १६; ६, १६; पप ४ १८ = २७;
 ३०; प्रा १, ६; -तेषु ई ६; श्रे ३,
 ७; ४, १५; १६; ६, ११; अ ३, ७;
 नाप ३, २२; शां १, १; १ संन्या
 २, ३९; अज्ञ ५, ७१; जाद १,
 १५; १०, १०; गोड ६५; शु ५६;
 ५८; ५९; ६९; गी ३, १८; ७,
 ९; २, २९; ११, ५५; १८, २०;
 -तैः सुं ३, १, ४; लि ३१० = १६.
 सर्व-भूत-सुहा-शाय-या- -यः श्रे
 ३, ११; अवि १०७; -पा शु ४७.
 सर्व-भूत-सुहा(शि-आ)प्र(व>)-
 या- -या योशि ३, ८.
 सर्व-भूत-दमन- -नाय मना २,
 १८^५.
 सर्व-भूत-निगूढ- -क. शां २, १.
 सर्व-भूत-निवास- -सः नाप १, १०

सर्व-भूत-बन्धन- -नाय व
 ४५६ = ६.
 सर्व-भूत-स्त-ज्ञान- -नम् योशु
 ३, १७.
 सर्व-भूत-वशां-क(र>)री- -रीम्
 व ४३२ = २१.
 सर्व-भूत-विनाश- -शाय वषं
 ३१२ = १४.
 सर्व-भूत-स्थ- -स्थम् कै १, १०;
 ना ४; आयो १; गी ६, २९.
 सर्व-भूत-स्थित- -सम् अवि ७७;
 गी ६, ३१.
 सर्व-भूत-हित- -तः नाप ३, ५५;
 -ते सुं १, २, ६; गी ५, २५; १२, ४.
 सर्व-भूत-हिता(त-आ)र्थ-
 -रथाय शि १, २.
 सर्व-भूता(त-आ):मन्- -मने
 त्रिवि ७, ४८; -रमा गोड ६४;
 भव २, ३२.
 सर्व-भूता(त-आ)त्म-भूता-
 (त-आ):मन्- -रमा गी ५, ७.
 सर्व-भूता(त-आ)दि- -दि ते १,
 २६.
 सर्व-भूता(त-आ)धिवास,सा-
 -सः श्रे ६, ११; अ ३, ७; अवि
 १०६; शां २, १; गोड ६५; राधा
 ४, २३; -सम् अवि २२; त्रिता
 ५, २१; नापू ४, १४; अवि २२;
 -सा शु ६९.
 सर्व-भूता(त-आ)न्तर-स्थ,स्था-
 -स्था शु ६२; -स्थाय वरा २,
 ३३.
 सर्व-भूता(त-आ)न्तरात्मन्-
 -त्मनि योशि ६, १३; -रमा क २,
 २, १-१२; सुं २, १, ४; श्रे ६, ११;
 अ ३, ७; शुजा २, १; शुबा ७; अवि
 १०५; राड ४, ८; शां २, १;
 अध्या १; गोड ६५; शु ४४.

सर्व-भूता(त-आ)न्तर-याम्या-
 (मि-आ):मन्- -रमा नाड १,
 १७.
 सर्व-भूता(त-आ)न्तर-वर्तिन्-
 -र्ती निर्वा २९७ = ७.
 सर्व-भूता(त-आ)श- -अम् मै ५, २.
 सर्व-भूता(त-आ)शाय-स्थित-
 -तः गी १०, २०.
 सर्व-भूमि- -मिषु अवि ४१.
 सर्व-भूमि- -मः नाद १२; -माः
 योशु २, ३१.
 सर्व-भूमि-वत् पै २, ३८.
 सर्व-भूपण-भूषित- -तम् १योत
 १०१.
 सर्व-भृत्- -भृत् गी १३, १४.
 सर्व-भृत्-समन्वित- -तः शि ६,
 १११; १७८.)
 सर्व-भोग- -मात् सार २६८ = १८.
 सर्व-भोग-प्र(व>)दा- -दा रा
 ४२५ = ३१.
 सर्व-भोग-प्रभेद-
 सर्व-भोग-प्रभेद-क- -कम् ते
 ५, ४९.
 सर्व-भोग(ग-आ)ज्य- -ज्यम्
 सार २६८ = १६.
 सर्व-भोग(ग-आ)मि(त>)ता-
 -ताम् सार २६८ = १९.
 सर्व-मङ्गल- -सम् रा ४२४:
 १६; -लानि त्रिवि ८, १८.
 सर्व-मङ्गल-कारि(रु>)णी- -णी
 आय ३९७ = ५.
 सर्व-मङ्गल-माङ्ग(ल्य>)ह्या-
 -रुष्ये व ४३१ = १; ४५८ = ९.
 सर्व-मङ्ग(ल>)ला- -ला हे १.
 सर्व-मन- -शोमण- -णाय दत्ता २,
 व ४५६ = ७.
 सर्व-मनो-वृत्ति- -त्तिः त्रिवा २,
 १५६.

a) लि ५, ८०, ९१। b) तैआ १०, ४७, १। c) तैआ १०, २१, १। d) तैआ १०, ६३, १। e) ०वां मू
 हति वे.। f) तैआआ १०, ६५। g) तैआ १०, ४४, १। h) कत.। i) यस.।

सर्व-मन्त्र-न्त्राणाम् योशि २,८;
 -न्त्रान् त्रे ३, ७४; -न्त्रेषु ६७;
 राउ ४,२; ता ३,८.
 सर्वमन्त्र-जापिन्-यी कालि
 ४०२: २०.
 सर्वमन्त्र-प्रमल्ल(न>)नी-
 -नीम् व ४३३: ३.
 सर्वमन्त्र-फल-द-दः रार
 २,३८.
 सर्वमन्त्र-म(य>)यी-यी
 आथ ३९६: २०.
 सर्वमन्त्र-सर्वयन्त्र-सर्वतन्त्र-
 सर्वपल्लव-स्वरूप-पाय दत्ता
 २.
 सर्वमन्त्र-सिद्धि-द्विम् कालि
 ४०३: १०.
 सर्वमन्त्रा(न्त्र-अ)थार्थ(अ)-
 धर्वण-वेद-सिद्धि-द्विम् लां
 २१६: ११.
 सर्वमन्त्रे(न्त्र-ई)धर-रः पी
 ४२२: ५.
 सर्वमन्त्रो(न्त्र-उ)त्तमो(म-उ)-
 त्तम-मः द १३.
 सर्व-मन्त्र-योग-पारीण-णः
 दत्ता ३.
 सर्व-मन्त्रा(न्त्र-आ)सन-ग(त>)-
 ता-ताम् त्रिता १, ७६; तौ
 १,१.
 सर्व-मय-यः वृ ४,४,५; त्रिवि ५,
 १०; -यम्, -याः नृउ ९,७; -ये
 नि ३०.
 सर्व-मांस-सस्य भव ४,१६.
 सर्व-माया(या-आ)दि-विद्या-
 -द्याम् कालि ४०२: १५.
 सर्व-मार्ग-मैंग योशि ६,१५.
 सर्व-मुष्य-खयम् वरा ५,३५.
 सर्व-सुमुख-धुभिः त्रिवि १,१.
 सर्व-सूषर्न्-पैनि कृ २१.

सर्व-मूला(ल-अ)विद्या-निवर्तक-
 -कः त्रिवि १,१.
 सर्व-मृत्यु-प्रशम(न>)नी-नी
 आथ ३८७: ८.
 सर्व-मृत्यु(त्यु-उ)पघातक-कः
 शां १,७,४३.
 सर्व-मौन-फल-लः मैत्रे ३,१६.
 सर्व-यज्ञ-ज्ञानाम् गी ९,२४.
 सर्वयज्ञ-याजिन्-जी कालि
 ४०२: ४.
 सर्वयज्ञो(ज्ञ-उ)त्तमो(म-उ)-
 त्तम-मः शा १६.
 सर्व-यज्ञ-कर्म-कर-रः सार
 २७८: २०.
 सर्व-यत्न-रत्नेन नाप ३,५०; महा
 ४,३; शि ७,२७.
 सर्व-युवति-तीनाम् काम २.
 सर्व-योग-नेपु योरा ३.
 सर्वयोग-प्रसिद्धि-द-दम् यो
 २,२१.
 सर्व-योगिन्-गिनाम् गौ ३,४०;
 -गिभिः गौ ३, ३९.
 सर्व-योनि-निपु गी १४,४.
 सर्व-योनि-सुदा-ज्ञा आथ
 ३९४: १८.
 सर्व-रक्ष-क्षः नृप ८५: १७.
 सर्व-रक्षा-कर-रम् त्रिता २,५९.
 सर्वरक्षाकरी-री त्रिता २,१५.
 सर्वरक्षाकरी-संबन्ध-न्धम्
 त्रिता २, १८.
 सर्व-रक्षा-समन्वित-तम् शां १,५
 सर्व-रक्षा-स्वरूप-
 सर्वरक्षास्वरूपि(न>)गी-गी
 आथ ३९७: २३.
 सर्व-रक्षो-ज्ञ-ज्ञाय वपं ३६२:
 १३.
 सर्व-रत्न(न>)नी-नी आथ ३९६:
 १५.

सर्व-रत्नो(ल-उ)पदोभित-तम्
 शि ६, १०७.
 सर्व-रत्नो(ल-उ)पस्थान-नम् योव
 २,३७.
 १सर्व-रस-सान् १अथ ६.
 २सर्व-रस-सः छां ३,१४,२; ४.
 सर्व-रहस्य-स्यम् त्रिवि १,२.
 सर्व-रहस्य-चरि(ष्ठ>)ष्टा-ष्टाम्
 वि १.
 सर्व-राज-वशं-क(र>)री-री
 व ४३५: ३; -री व ४५८:
 १६.
 सर्व-रात्रि-त्रिपु रा ४२३: २०,
 ४२४: ४; ७; ४२५: ११; १२.
 सर्व-रूप, पा-पः गुपो ४२१: २;
 -पम् त्रिता २, ३५; शौ ५२: ६;
 वि ८; ११; -पा शौ १८; सर २,
 ५; -पाः मुं २, १, ९; मना २, १२;
 १७^०; -पै अत्र २, २५.
 सर्वरूपा(प-आ)विर्भाव-
 -वाभ्याम् सार २४८: ५.
 सर्व-सोम-गाः जाद ६, ४५^१; -गैः
 त्रिना २, ११०.
 सर्व-सोम-क्षय-यः वोचू ११६.
 सर्व-सोम-निवृत्ति-त्तिः शां १,
 ७, ४७; जाद ६, २४.
 सर्व-सोम-भया(य-अ)पद-दम्
 जाद ३, ५.
 सर्व-सोम-विनाश-शः शां १,
 ७, ४५.
 सर्व-सोम-विनिर्मुक्त-कः शां १,
 ७, ४४; जाद ६, २३.
 सर्व-सोम-समुद्भव-वः वोचू
 ११६.
 सर्व-सोम-हर-रम् त्रिता २, ६१;
 यो १, २८.
 सर्व-लक्षण-ज्ञान-करण-संपूर्ण-
 -र्णः गर्भं ३^१.

सर्वलक्षण-संयु(त>)ता- -ताम्
 शि ६, ११६.
 सर्वलक्षण-संप(त>)सा- -प्राम्
 प्रिता १, ८४.
 सर्वलक्षण-संपूर्ण- -र्णः गर्भ ३.
 सर्व-उद्गमी-
 सर्वलक्ष्मी-म(य>)मी- -यीम्
 प्रिता १, ८३.
 सर्व-लक्ष्म- -क्ष्म मना २, १६;
 लि ३०९, ५.
 सर्व-लोक- -कः मैत्रे ३, १; -कम्
 उग्र ५, १६; ते २, २६; वउ
 ५, १३; -कल्प क २, २, ११;
 शि ६, १००; हे ८; -काः युवा
 १०; -कान् य ३; -कानाम् ते
 १, २७; पै २, १; शि ६, १६५; व
 ४३३; ७; -नेयु १योत १०९.
 -कैः गोच ६९ : १६.
 सर्वलोक-गुरु- -रुः गौमे ३, १.
 सर्वलोक-ज्ञान- -ज्ञान् शी १, ७,
 ५२.
 सर्वलोक-पितामह- -हः माहा
 ५, १५८.
 सर्वलोक-मध्य- -ध्ये गण्डे २,
 १७.
 सर्वलोक-म(य>)यी- -यी ली
 १०.
 सर्वलोक-महेश्वर- -रम् शी ५,
 २९.
 सर्वलोक-सलीला- -लायाम्
 सार २७३ : २३.
 सर्वलोक-वर्ण-अ(र>)री-
 -रि व ४३१ : ४.
 सर्वलोक-वद्वय-अ(र>)री-
 -री शी ३, १.
 सर्वलोक-संचार- -रम् नाप १.

सर्वलोक-संचार-शील- -लः
 शी २, ५, २६.
 सर्वलोक-स्तुति-पाय- -यम् मं
 २, ५, २.
 सर्वलोक-द्विधा(त-ध)र्थ- -र्थाय
 शि ६, १३३.
 सर्वलोक(क-आ)भक- -कः
 १अय १२.
 सर्वलोक(क-अ)धिपति- -तये
 त्रिपि ७, ४६.
 सर्वलोकिन्- -फी राप् '१, ९.
 सर्वलोक(क-ई)त- -त वि ४.
 सर्वलोक(क-ए)क-सोदि(य>)-
 नी- -नी नाप् २, १२.
 सर्वलोक(क-ए)क-सौन्दर्य-
 -र्यम् गोच ६९ : १११.
 सर्वलोक(क-उ)पकार- -राय
 शि २, १९; ६, १२०.
 सर्वलोक(क-उ)पकार(क-प्र)र्ण-
 -र्णम् शि ७, १३६.
 सर्व-वक्त्र- -वक्त्राः त्रिपि ८, १८.
 सर्व-वर्जित-विग्रहा- -राः शी ५, १.
 १शाभ-वर्ण-
 सर्ववर्णा- -र्णा अ १; -०णं
 मना २, १४५.
 १रा(य)वर्णिक- -वक अष्ट ५.
 १शाभ-वर्ण- -र्णेषु नाप ५, १; मि
 ११; १रांग्ना २, १३; ७४; लि
 ३१०; १९.
 सर्ववर्ण-
 सर्ववर्ण(र्ण-ए)क- -रौश-
 (श-अ)टव-पर-
 सावर्णिकभौक्षटनपर-
 ख- -रम् नाप ५, १.
 २सर्ववर्णिक- -केषु नाप ५, १.
 सर्व-वर्णा(र्ण-आ)श्रमा(म-आ)-

चार- -रम् ति ५, ८२.
 सर्व-वत-
 सर्ववशित्-
 सर्ववशित्या(नी-आ)श-
 (दि-अ)ष्टक- -कम् प्रिता २, ६१.
 सर्व-वशं कर- -रम् लि ३० : १७.
 सर्ववशं करी- -रि अष्ट १५;
 -री भाष ३९६ : १६.
 सर्ववशं करी-सुदा- -दा
 भाष ३९४ : १४; ३९७ : १.
 सर्व-वश-अ- -र व ५; -रः
 वर २, ७६.
 सर्व-वस्तु- -स्तुमि मिमा २, १९.
 २अय ३३७; ५; -रुपु माप ६,
 ११.
 सर्ववस्तु-परिष्कार- -री अथ
 १, ४५.
 सर्व-वशी(र-ई)शर- -र श
 ११ नाम त्रिपि ७, ४१.
 सर्व-वाङ्मय- -मय अष्ट ५.
 सर्व-वाष्प- -वाष्प शी ५, १.
 सर्व-वाच्य- -वच्य राप् १, १९.
 सर्ववाच्य-विमर्शित- -शर शी ४,
 ७८.
 सर्व-वाच्य-वस्तु- -स्तु अ १.
 सर्व-वात-स्तम्भ-कर्तृ- -र्ता पी
 ४२२ : ४.
 सर्व-वासत-पहृत्कि- -हृत्क्यः महा
 ६, ८१.
 सर्व-वासना-क्षय- -क्षय गुण १, १
 सर्व-विद्य- -विद्य रार २, ७८;
 -विद्या य २, २३; -विः य १६.
 सर्वविद्य-निवार(य>)गी- -गी
 भाष ३९७ : ९.
 सर्वविद्य-अमन- -मन अष्ट ५.
 सर्वविद्य-हर- -रः १योत ६४;

a) सर्वसपूर्णाः इति अथवा । b) तौशाया १०, १६ । c) 'सर्वान् लोकान्' इति निशा. । d) 'वद्वयसं' इति निशा. । e) 'वः' इति निशा. । f) 'कैः कृष्णसौ' इति पा. १ रवि. शोधः द. । g) वय. उच. = २वर्ण- । h) तौशाया १०, ३४ । i) कथ. उच. = ३वर्ण- । j) 'अणिकमि' इति अथवा. । k) सवति' इति अथवा. । l) पा. ०वाः, 'पहृत्किकाः इति शोधः द. ।

वरा ५,७१.
 सर्व-विजय-०० व ४५८: १३.
 सर्व-विद्- -विक् सुं १, १, ९; २,
 २,७; वृ ३,७,१; थे ६,३; १६;
 अ २; २संन्या १५:६; रू ३३;
 ग १९; आर्षे ९:१३; वृ ३३ १८:
 ७; मव २, ४७; सार्ध ३, ५६;
 गी १५, १६.
 सर्ववित्-तम- -म: वा ३.
 सर्व-विद्या- -द्या त्रिता १, १; घानाम्
 मना २, २१७^७; वृ १, १२; व
 ४३२: २१; -घाम् त्रिवि ७,
 ४१; वि १; घामु नापू ५, ३५.
 सर्वविद्या-ज्ञान-
 सर्वविद्याज्ञान-वत्- -वार्
 सारा ८३: ७.
 सर्वविद्या(वा-आ:मक>)मि-
 का-००के अक्ष १५.
 सर्वविद्या-पाण्डित्य-प्रपञ्च-
 -घाम् तुअ १५.
 सर्वविद्या-प्रकाशक- -काय व
 ४५६: ५.
 सर्वविद्या-प्रकाशन-प्रद- -दाय
 व ४५६: ९.
 सर्वविद्या-प्रतिष्ठा- -ष्टाम् सुं १,
 १,१.
 सर्वविद्या-मनेदि(न>)नी-
 -नीम् व ४३३: ४.
 सर्वविद्या(वा-आ)भ्यास- -सम्
 नाप १: २.
 सर्वविद्या-रहस्य-ज्ञ- -ज्ञ: नाप
 २.
 सर्वविद्या(वा-अ)र्थ-स्वरूप(>)-
 वा- -पाम् व ४१८: ११.
 सर्वविद्ये(वा-ई)धर- -र: पी
 ४२२: ५.
 सर्वविद्येश्री- -रीम् त्रिता
 २, १०.

सर्व-विद्राविणी-सुद्रा- -द्रया
 त्रिता २, ५२; -द्रा आध ३९५:
 १८.
 सर्व-विद्राविणी-शक्ति- -क्ति:
 आध ३९६: १०.
 सर्व-विध- -धा: सार २८५:
 १३.
 सर्व-विभु- -भु २प्र ३२: ५.
 सर्व-विलक्षण- -णम् सुद्र ४.
 सर्व-विशेष- -पम् अता ३.
 सर्व-विश्व- -श्वम् क २०.
 सर्व-विष- -पम् गह ६; लां २१६:
 ३; व ४३३: २२.
 सर्वविष-नाश-कर-००र
 अक्ष ५.
 सर्वविष-हर-००र अक्ष ५.
 सर्व-विष-भूत-रक्ष-कृत्या(सा-आ)
 दि-भेदन- -नाय त्रिवि ७, ३७.
 सर्व-विषय- -यम् योम् ३, ५५.
 सर्वविषय-पराहमुख-
 सर्वविषयपराहमुख-नव-
 -स्वम् शां १, ८.
 सर्व-वृक्ष- -क्षाणाम् गी १०, २६.
 सर्व-वृत्ति- -त्तीनाम् ते १, ३१.
 सर्ववृत्ति-विवर्जित- -त: त्रिमा
 २, १६२.
 सर्ववृत्ति-विहीना(न-आ)मम्-
 -न्मा ते ४, ५४.
 सर्व-वैतृ- -त्ता ए ९.
 सर्व-वैद- -दम् नाउ ३, १०; -दा:
 योशि ६, २९; -देषु कलि २; गी
 ७, ८; -दै: २शिसं २०; क्या ७.
 सर्ववेद-धनुर्वर्ग-फल-प्रद-
 -दम् गोव ६९: २.
 सर्ववेद-पारायण-पुण्य- -पयम्
 ना ५^१; मवा १२.
 सर्ववेद-पारायण-फल-लम् म
 १, ११; हे १४.

सर्ववेद-मय-००य ह ५; -यम्
 ध्या ३३^४; -याय त्रिवि ७, ४१.
 सर्ववेदमयी- -यी सी १०.
 सर्ववेद-स्वरूप-
 सर्ववेदस्वरूपि(न>)णी-
 -णी नापू २, १३.
 सर्ववेदा(द-अ)ध्याविम्- -यी
 कलि ४०२: २०.
 सर्व-वेद-तपो-निधि- -धि: शु
 १, १.
 सर्व-वेद-वेदान्त- -न्तानाम् नापू
 ५, ४१.
 सर्व-वेद-मृत-चर्चा- -र्चासु पै
 ४, २३.
 सर्व-वेदस- -सम् क १, १, १; मना
 २, ८०७^७; सुता १, २८.
 सर्व-वेदान्त-गोचर- -र: ते ४,
 ५६; नापू २, १७; -रम् नापू १,
 १७.
 सर्व-वेदान्त-वृत्त- -वृत्त: मैत्रे ३, १५.
 सर्व-वेदान्त-प्रत्यय- -यम् मसू ३,
 ३, १.
 सर्व-वेदान्त-वेद्य- -द्यम् सता ५.
 सर्व-वेदान्त-संलक्ष्य- -क्षयम् नाउ
 १, २७.
 सर्व-वेदान्त-सार- -र: ते ६, ६७.
 सर्व-वेदान्त-सिद्धान्त- -न्तम् ते
 ५, ८४.
 सर्ववेदान्तसिद्धान्त-सार- -रम्
 कर ४२.
 सर्व-वेदा(द-अ)र्थ-वेदिन्-
 -दिभि: नाप ६, १३.
 सर्व-वेद्य- -द्य: नाप ९, २०; -द्यम्
 ते ५, ८२^१.
 सर्व-वेदाय-प्रभाय- -वेन अद्वै
 २५१^१.
 सर्व-व्याकृति-हेतु- -त्ते सार
 २४७: ३.

a) विद्या: इति घान. संदि. । b) तेष्वा १०, ४७, १ । c) ०ं डुं इति Jc. । d) ०वदेयमया इति
 घान. ०वदेय इति घान्वा. संदि. । e) तेष्वा १०, ६४, १ । f) ०वेदम् इति घान्वा. । g) घ. गपू. ४२६३ ।

सर्व-व्याधि- -धीन् तं ३, ६५.
 सर्वव्याधि-विनाशिन(न्)जी-
 -नी आद्य ३२७:१९.
 सर्वव्याधि-विधा(य-अ)पह-
 -हम् त्रिधा २, २९; शां १, ३, ८.
 सर्वव्याधि-हर- -०२ अक्ष ५;
 -रम् द्वा २, १६.
 सर्व-व्यापक- -०क अक्ष ५; -क:
 त्रिवि २, १५; नापू १, १२; -कम्
 मं ४, १, ३.
 सर्व-व्यापार- -रम् ते ६, १०६;
 १यौत ७९.
 सर्व-व्यापिन्- -पि २प्र ३२: ५;
 -पिनम् खे १, १६; गी १, २८;
 ऋ ३, १७; -पी खे ३, ११; ६,
 ११; म ३, ७; अशिं ३, ११;
 ४, ४; ६९^१; ऋवि ७८; १०६;
 त्रिधा २, ८१; योचु २६; शां १,
 ४; ३, १; पै४, ९; १आ १; २आ
 ३; गीउ ६५; यद् ३१५: ११^१;
 १९; २१९^१; रितिसं १०९^१.
 सर्व-व्रता(त-अ)तिरिक्त- -क्त्वा सार
 २८०: ९.
 सर्व-शाक्ति^१-
 सर्वशाक्ति-प्रसन- -०न लां
 २१४: ११.
 सर्वशाक्ति-देवी- -वी आद्य
 ३२७: १६.
 सर्वशाक्ति-ष्ट- -ष्टक पं १२.
 सर्वशाक्ति-प्रद- -०३ अक्ष ५.
 सर्वशाक्त्या(कि-आत्मक>)कि-
 क्त्वा- -०के अक्ष १५.
 सर्वशाक्ति- -क्ति: त्रिवि १, १;
 -के: महा ४, ८७.
 सर्वशाक्ति-ता- -तया महा ५,
 १२०.
 सर्व-शत्रु- -शत्रु लां २१४: १४.
 सर्वशत्रु-निबर्हण- -व्य: रार २,

७०.
 सर्वशत्रु-निबर्हि(न्)जी- -गी
 कृ २३.
 सर्वशत्रु-निवार(ण>)गी-
 -गीम् व ४३२: २२.
 सर्व-शाब्द- -ब्दम् रार २ ६५.
 सर्व-शारीर- -राणाम् वसु६; -रे योचु
 २४; -रेषु गी ३, ९; मं १, १, ९.
 सर्वशारीर-स्थ- -व्यंतव्य-अक्ष-
 प्रापक- -क: नि ४२
 सर्व-शारीरिन्- -रिणः कृ १७.
 सर्व-शास(>) छां ७, २६, २; मैत्रि
 ७, ११; मना १, २९^१; नाप ३,
 ३२; ७४; ५, ७; ६, ३५; योशि
 ६, १२; रह २; सुता १, १६;
 भव १, १३; ५, ४; गी १, १८;
 २, ५८; १८; ३, २३; २७; ४, ११;
 १०, २; १३, २९.
 सर्व-शाक- -कानि शि ६, ८५.
 सर्व-शाखा- -खा सी २९.
 सर्व-शास्त्र- -स्ता रा ४; -स्तारम्
 जाद ८, ७.
 सर्व-शास्त्र- -कम् कालि ४०२: ४;
 -स्त्राणि मु २, २, ६५.
 सर्वशास्त्र-ज्ञ- -ज्ञा: स्वद १: १६.
 सर्वशास्त्र-मय- -यम् २तिसं
 २७.
 सर्वशास्त्र-विशारद- -०२ हं १.
 सर्वशास्त्र-वेत्- -स्ता कालि
 ४०२: २१.
 सर्वशास्त्र-सिद्धान्त- -न्तम् अक्ष
 ३, २१; -न्तेषु त्रिवि २, ८.
 सर्वशास्त्र-सुनिश्चित- -तः तं
 ६, ६७.
 सर्वशास्त्र(स-अ)र्थ-निर्णय-
 -यम् ते ५, ८४.
 सर्व-शु(क>)क्त्वा- -क्त्वा सर ३, १.
 सर्व-शून्य- -न्य: ते ३, २७; ५, ६५;

-न्यम् त्रिवि ३, ४-६; सी २, १७.
 सर्वशून्य-स्वरूप- -पते ३, ४०.
 सर्व-शोक- -कम् ते ३, ६५.
 सर्व-शोभा-समन्वित- -तम् त्रि
 ६, १३८; -ते त्रि ७, ७६.
 सर्व-श्री- -श्रियम् २संन्या १६: ४१^१.
 सर्व-श्रुति-रहस्य- -स्यम् कलि १.
 सर्व-श्रुत्य(ति-अ)र्थ-प्रतिपादन-
 -नम् नाप ५, १.
 सर्व-श्रुत्यु(ति-उ)त्तम- -म: नाप
 ८, ३.
 सर्व-संशय- -या: मुं २, २, ८; महा
 ४, ८१; योशि ५, ४५; ६, ४०;
 अक्ष ४, ३१; सर ३, ३२; -नम्
 त्रिवि ८, १३.
 सर्व-संसार- -रम् नाप ५, ३९; ९,
 २०; -रेषु पप ४१८: ६.
 सर्वसंसार-भेषज- -जम् अक्ष
 ५, ७२; जाद ९, १.
 सर्वसंसार-मोचक- -क: श ३१,
 सर्वसंसार(र-उ)परि नाप १.
 सर्व-संसार-दु:ख- -खानाम् महा
 ३, २५.
 सर्व-संश्रुति- -ते: यो २, ९.
 सर्व-सं(स्था>)स्थ- -स्थे ये १, ६;
 नाप ९, ५; भव २, ४.
 सर्व-संहर्ष- -र्षा महा ४, २२.
 सर्व-संहार-क(र्षे>)र्षी- -र्षीम् मु
 ५९.
 सर्व-संहार-समर्थ- -र्थ: वृउ २, ११
 सर्व-संहारिन्- -नी महा ३, ३८.
 सर्व-संहव- -ह्वनि त्रिधा ३, ११.
 सर्व-संक्षय-शाल- -शम् ते ५, ९७.
 सर्व-संक्षय-रहित, वा- -ता ते ५,
 २; -ता महा ५, १००.
 सर्व-संक्षय-शून्य-
 सर्वसंक्षयशून्य-स्थ- -नवाव ते
 ५, १६.

१) वा. १) व्यापिम ० इत्येवं समस्तं द. । b) कस. । c) वस. । d) तेषां १०, १, २ । e) ०श ० इति अख्या.
 संदि. । f) ह्नुदोदप्या 'सर्वां श्रियम्' इति शोचो: द्र. ।

सर्व-संकल्प-संज्ञान्त- -त्तम् अञ्ज
२, ४, ४८.

सर्व-संकल्प-संन्यास- -सः महा
२, १.

सर्व-संकल्प-संन्यासिन्- -सी गी
२, ४.

सर्व-संकल्प-संभ्रम- -मः ते ५, ४१.

सर्व-संकल्प-हीना(न-श्चा)मन्-
-यमा ते ४, ४४; ६८.

सर्व-संक्षोभण- -णम् त्रिता २, ५३.

सर्व-संक्षोभि(न्)णी-
सर्वसंक्षोभिणी-सुद्धा- -द्वा
त्रिता २, ५०; -द्वा आध ३९४:

११; २२.

सर्वसंक्षोभिणी-शक्ति- -क्तिः
आध ३९६; १९.

सर्वसंक्षोभिण्या(णी-श्चा)दि-
चतुर्दशक- -कम् आध ३९६; ८.

सर्वसंक्षोभिण्या(णी-श्चा)दि-
चतुर्दशा(श-श्च)र-म- -देवता-
-ताः भा १५४.

सर्व-सङ्ग- -ङ्गान् नाप ५, ३१.

सर्वसङ्ग-निवृत्ता(त-श्चा)मन्-
-यमा वरा २, ३६.

सर्वसङ्ग-रिक्त- -क्तः सार २२७:
१७.

सर्वसङ्ग-विवर्जित- -तः ते ४,
६; नाद १९; नाप ६, १९; शां
१, ५; शि १, २८.

सर्व-संजीवना(न-श्चा)द्य- -द्यौ
सावि १०.

सर्व-संज्ञा-विवर्जित(त)ता- -तः
महा ५, १००.

सर्व-सराय-वसं-श्च(र)णी-
-रिति व ४३५; ४.

सर्व-सराय-मुख- -रः गी ४, २.

सर्व-संतोष- -पः सं २, ३, ५.

सर्व-संवेद-नादान- -त्तम् निवां

२९८; १७.

सर्व-संधि-स्थ- -स्थः त्रिधा २,
८१; शां १, ४.

सर्व-संन्यासिन्- -सी कालि ४०२:
१९.

सर्व-सम- -मः नाप ५, १; १संन्या
२, १३; १शौल ७: ३; -मम्
नि २८; -माः आध ४,

सर्व-समन्वित- -तः ते ४, ५५.

सर्व-समाचार- -रः महा ६, ६७.

सर्व-समाहित- -तः शि ६, १४.

सर्व-समृद्धया(दि-श्चा)नन्दा-
(न्द-श्चा)वधि- -धि सार
२५३: १.

सर्व-संपत्-प्रद,दा- -द अक्ष ५;
-दा आध ३९७: ४.

सर्वसंपद्-वृद्धि-कर- -रः दत्ता
१, ३१.

सर्व-संपत्ति-पूर(ण)णी- -णी
आध ३९६: १९.

सर्व-संपत्ति-भूत- -त्तम् त्रिता २, ६.

सर्व-संपूर्ण-शक्ति-
सर्वसंपूर्णशक्ति-ता- -ता योशि
३, २५.

सर्व-संबन्ध- -न्धः महा २, ८;
-न्धात् सां १, १२.

सर्वसंबन्ध-वर्जित- -तः त्रिधा
२, ८९,

सर्व-संभवा(व-श्चा)भाव- -वात्
सांका ९.

सर्व-संभोग- -नाय व ४५७: ५.

सर्व-संमोहि(न्)णी-शक्ति-
-क्तिः आध ३९६: १३.

सर्व-साक्षिन्- -क्षिणम् वृत् ५, ३;
नाप ६, ९; शां ३, ३; अक्ष ४, ३६;
रह ४९; वरा २, १३; २९; ३२;
-क्षिणि वृत् ९, ९; -क्षी योच

७२; शा. २०.

सर्वसाक्षि-स्व- -स्वेन अञ्ज ३, ८.

सर्वसाक्षि-लक्षण- -णः
ते ६, ६६.

सर्वसाक्षि-श्रुत- -त्तम् म ४८: ३.

सर्व-साधार(ण)णी- -णीम्
मन्त्रि ७; चू ७.

सर्व-सामान्य- -न्यम् महा ४, १३१.

सर्व-सामोष्य- -प्यम् ज्ञा ४, ३१.

सर्व-साम्य- -म्ये गौ. ३, १०.

सर्व-सार- -रम् सु १, १, ३३५^{११};
-राणाम् अञ्ज ४, ७०.

सर्व-सिद्ध-नमस्कृत(त)ता- -ता
योचू ५५.

सर्व-सिद्धान्त-संग्रह- -हः महा
६, ७७.

सर्व-सिद्धि- -द्धयः त्रिवि ५, ७; ८,
१२; -द्धये श ७; वि १६; -क्तिः
दे ७; -द्धिम् योशि ५, ५४; रा
४२५: १३; -द्धीनाम् वीरा १०;
-द्धेः मां १, ८८.

सर्वसिद्धि-कर- -रः त्रिधा २,
२७; -रम् योशि १, २,

सर्वसिद्धि-कर्तृ- -र्ता यी ४२२:
१७.

सर्वसिद्धि-व- -वः नाप ९, २०.

सर्वसिद्धि-भद्र,दा- -द अक्ष
५; -दम् त्रिता २, ६३; -दा वी ३,
१; आध ३९७: २; -द्वाः भा १६.

सर्वसिद्धिभद्र(द-श्चा)दि-
दशक- -कम् आध ३९७: २.

सर्वसिद्धि-भद्रायक- -क्तः सत्ता
२, १९.

सर्वसिद्धि-विवर्जित- -तः ते ५,
६९.

सर्वसिद्धि-समाश्रय- -यम् वी
२, ९.

अ) न्तो इति अच्चा. । b) उप. कर्तारि क्तृ. । c) ससर्वो इति पा. इ यनि. शोषः द. । d) वृ. अच्चा. १देयताः इति; वैतृ. ०दुर्दशाशक्तयः इति तान्त्रि. । एतद्वत् गण. (४३९२) सप्तम. 'देवता-> -ताः' इत्यत्र यनि. शोषः कर्तव्यः (वृ. गण. १९०१b) । e) ०ती इति अच्चा. इ यनि. शोषः द. । f) =तदात्म्यापनपदशेष-

सर्वसिद्धी(दि-ई)धर- -रः काम
२०; कालि ४०१:५; चक्र ९;
हंपो १; २१.
सर्वसिद्धी(दि-आ)दि-हेतु-
-तवे यो २,३८.
सर्व-मुख- -सम् कालि ४०२:११;
-खात् वरा ३,१०.
सर्व-मुख-संपत्ति-पूर्णा(ए-आ)-
-मन्द- -न्दः सार २७५:१६.
सर्व-सुभ(ग)गा- -गाम् त्रिता १,
०५.
सर्व-सूज- -सूक् मैत्रि ७,१.१'
-सर्व-सौह्य- -ख्यानि, -ल्यैः सुबा५.
सर्व-सौभाग्य-द्- -दम् पं ९.
सर्व-सौभाग्य-दायक- -कम् त्रिता
२,५४.
सर्व-सौभाग्य-दायि(व>)नी-
-नी आय ३९७:११.
सर्व-सौभाग्य-प्रद(व>)दा- -दा
रा ४२५:२१.
सर्व-सौम्य- -म्य नाप ४,३८;
१संन्या २,१२.
सर्व-स्तम्भ-कर(र>)री- -रीम् पी
४२१:२.
सर्व-स्तम्भनी-शक्ति- -क्तिः आथ
३९६:१३.
सर्व-स्त्री-पुरुष-व्रत-कर(र>)री-
-रिञ्ज ४३५:४.
सर्व-स्थूल-पालक- -कः पै १,१५.
सर्व-स्थु- -स्थुते मैत्रि ६,३५.
सर्व-लघु- -लघुम् भव १,५६.
सर्व-स्व- -स्वम् १संन्या १,१; कथु
१,१.
सर्व-स्वजन-संयु- -यः शि ६,
१११.
सर्व-स्वरूप- -पः शिचि १,१.
सर्वस्वरूपिन्- -पिणम् सूता
१,७.
सर्व-हत्या- -ह्याम् वृजा ८,३; वृप

५,१३; राउ १,३; कालि ४०२:
१४.
सर्व-हर- -रः गी १०,३४.
सर्व-हीन- -नः ते ५,६८.
सर्वहीन-स्वरूप- -पः ते ३,३.
सर्व-हृद्- -हृदि अल १५.
सर्व-हृदया(य-अ)नुग- -गम् अल
३,२१.
सर्वा(र्व-आ)कर्मिणी-मुद्रा- -द्रया
त्रिता २,५४; -द्रा आथ ३९४:
१३; ३९६:७.
सर्वा(र्व-आ)कर्मिणी-शक्ति- -क्तिः
आथ ३९६:११.
सर्वा(र्व-आ)कार,रा- -रः भ २, ८;
वठ २,११; -रा व १२६.
सर्वा(र्व-आ)क्षर-
सर्वाक्षर-मय- -यः नाप ८,२;
तु १७.
सर्वा(र्व-आ)गम-
सर्वागम-मय- -म्यः नाप ८,२.
सर्वा(र्व-आ)गमा(य-अ)न्ता-
(न्त-अ)र्थ-विभावित- -तः
ते ५,६३.
सर्वा(र्व-आ)गमान्ता(न्त-अ)र्थ-
विक्षेप- -क्षेप- -क्षम् नाप ९,
१६.
सर्वा(र्व-आ)भि- -भीनाम् शि ४,
६५.
सर्वा(र्व-आ)ग्र-पाठ-संयु-
-कम् शि ४,१६.
सर्वा(र्व-अ)थ-मक्षण-सामर्थ्य-
-र्थ्यम् वृजा ६,५.
सर्वा(र्व-अ)धौ(घ-ओ)घ-निकृ-
-न्तन- -न्तम् सु १,१,४४.
सर्वा(र्व-अ)धौ(घ-ओ)घ-निवा-
रण- -णः राउ ५,६.
सर्वा(र्व-अ)धौ(घ-ओ)घ-निचु-
-त्ति- -त्तिः सूता ४,११.
सर्वा(र्व-अ)धौ(घ-ओ)घ-विना-

शन- -नम् पं ४:
मर्वा(र्व-अ)ङ्ग- -ङ्गम् वृजा ३,३२;
४,१; वं ३१२:२४; कालि
४०१:८; व ४३६:११; -ज्ञानि
के ४,८; तु २२; -ङ्गे कालि ४०१:
८^b; हंपो १७; -ङ्गेण द्या १५;
-ङ्गेषु त्रिवि ६,२३.
सर्वाङ्गिक- -कम् शि ५,२०.
सर्वाङ्गिक-प्रणाम- -मम्
शि ७,८.
सर्वाङ्ग-काम(म>)मा- -मां सार
२६३:२.
सर्वाङ्ग-मनोहर(र>)रा- -राम्
सार २४३:१४.
सर्वाङ्ग-संपूर्ण- -पूर्णः निह १,१४.
सर्वाङ्ग-सुन्दर- -रम् सं १,४,१;
कृ १.
सर्वाङ्गसुन्दरी- -री आय
३९७:१०.
सर्वाङ्ग-स्वप्न- -णम् भां ३१.
सर्वाङ्ग-हीन- -नः ते ५,६२.
सर्वाङ्गी(ङ-अ)दूलन- -नम् वृजा
४,४.
सर्वा(र्व-आ)चार-नय- -नय- -नयैः
अल ५,१००.
सर्वा(र्व-आ)चारा(र-अ)नुवृत्ति-
सर्वाचारानुवृत्ति-भव- -भवा
महा ६,७०.
सर्वा(र्व-आ)जीव- -वै वै १,६;
नाप ९,५; भव २,४.
सर्वा(र्व-अ)ज्ञान- -नम् ते ३,५८;
वं ३११:५१.
सर्वा(र्व-अ)ण्ड- -ण्डेषु त्रिवि ८,४.
सर्वा(र्व-अ)धीत- -तः ते ३,१२; कं
२६; -तम् १थोत८; योशि १,५.
सर्वातीत-पदा(द-आ)लम्बिन्-
-म्बी महा ६,६३.
सर्वातीत-स्वभावा(व-आ)-
-व्यम् -व्या ते ५,७.

६) पर्यां इति तान्त्रि. 1 b) 'पदज्ञेन' इति तान्त्रि. 1 c) 'नञ्ज्ञा' इति पा.१ यनि. शेषः ६. 1

सर्वा(र्व-आ)मक-कः कुं २६; सं
१८; कम् वृ७,४; सार ३,१;
राप् ४,६५; महा४,६०; ५,५६;
अल १,२२; के वरा ४,२८; सु
१,१,२३; केन वृ७,४; आय
३९९; १२.
सर्वात्मक-त्व- -त्वम् अङ् १४;
आप् ३; ७.
सर्वात्मक-पूजो(जा-उ)पचार-
-रः आप् ७.
सर्वा(र्व-आ)त्मन्- -त्मना त्रिवि ५,
१; २; १आ १२; कर् २५; सार
२६०; ११; हे २; -त्मने वृजा
४,३२; -त्मा के १,१६; वृ७ ४,
४; ८,१; ते ३,२७; ४,३४;
४१; त्रिवि १०७; अल ४,२६;
कर् ८; वृ७ ४,४७; भव २,५४;
-त्मानम् श्वे ३,२१.
सर्वात्मिक- -कस्य त्रिवि
२,१२०.
सर्वात्म्य- -त्म्यम् अप्या ४.
सर्वात्म-ता-
सर्वात्मता-सिद्धि- -दिः
१को० २; ४.
सर्वात्म-भाव- -वेन सार २३१;
५; २८६; ३.
सर्वात्म-वेदन- -जम् महा ४,
४२.
सर्वात्म-संयोग-योग-मीठा-
(ठ-आ)मन्- -रमने त्रिवि ७,
४८.
सर्वा(र्व-आ)दि- -दी त्रिता १,६५.
सर्वा(र्व-आ)द्वैत- -तम् त्रिवि ८,३;
स्व ६२; ४.
सर्वाद्वैत-परमानन्द-कल्पना-
(ण-घ)त्वद्वा(एउ-घ)मित-
तेजोराश्या(शि-घा)कार-
-रम् त्रिवि ८,५.

सर्वा(र्व-आ)धार- -रः नाप ८,१;
त्रिवि १,१; तु १५; -रम् त्रिवि
५,१२; म २,१८.
सर्वाधार-कार्य-कारण-
सर्वाधारकार्यकारण-म-
(य>)यी- -यी सी १०.
सर्वाधार-स्वरूप-
सर्वाधारस्वरूपि(रु>)णी-
-णीम् आय ३९७; २०.
सर्वा(र्व-आ)धिकारिन्- -री पारा १७.
सर्वा(र्व-आ)धिपति- -तिः सुवा ५;
त्रिवि १०६.
सर्वा(र्व-आ)धिपत्य- -त्यम् श्वे ५,३;
गु ६४.
सर्वा(र्व-आ)धि-स्याधि-नाशि-
(रु>)नी- -नीम् १श्रोत १२२.
सर्वा(र्व-आ)धि-स्याधि-भेषज-
-जम् पं १२.
सर्वा(र्व-आ)धिष्ठान- -नः वर १,१७;
-नम् त्रिवि ७,२०; अल ४,२९;
रुद्र २६.
सर्वाधिष्ठान-रूप- -रः ते ३,१३.
सर्वाधिष्ठान-सन्-मात्र,त्रा-
-त्रः वृ७ २, ११; त्रिवि ११०;
रा७ ३,१; -त्रा विद्या ४; -त्रे
अल २,२७.
सर्वा(र्व-आ)व्यास- -सम् ते ५,४९.
सर्वा(र्व-आ)जन-शिशो-श्री(वा>)-
-श्वः -वः श्वे ३,१; -वा गु ४७.
सर्वा(र्व-आ)नन्द-
सर्वानन्द-भय- -यः ते ५,२;
-यम् त्रिता २,६५.
सर्वानन्दमयी- -यी आय
३९७; २२.
सर्वानन्द-वर्धन- -नाय व
४५६; ९.
सर्वा(र्व-आ)न्य-शुद्धि- -द्धया नाप
९,२०.

सर्वा(र्व-आ)नुग्रहा(ह-अ)य- -याव
रजा १,१.
सर्वा(र्व-आ)नुग्राहक- -कः त्रिवि १०८.
सर्वा(र्व-आ)नुग्राहक-त्व- -त्वेन त्रिवि
२२; अवि २२.
सर्वा(र्व-आ)नुभव-निर्मुक्त- -कः ते
५,३.
सर्वा(र्व-आ)नुभु- -भुम् इ १२; १२.
सर्वा(र्व-आ)नुभू- -भूः वृ २,५,११;
त्रिवि ११०.
सर्वा(र्व-आ)नुस्यूत- -त्वे नि ३०.
सर्वा(र्व-आ)न्तर- -रः वृ ३, ४, १; ६;
२; ५, १; मैत्रि ७,६; वृ७ ७,
४; त्रिवि १०६; -रेण कर् २२.
सर्वान्तर-स्थ- -स्थम् नि २८.
सर्वान्तरस्थ-स्व-संबिद्-
रूप-विद्- -विद् नि ४४.
सर्वा(र्व-आ)न्तरात्मन्- -त्मा अद्वै
१११; पा ६, १.
सर्वा(र्व-आ)न्तर-भूत- -तम् त्रिता
१,२६.
सर्वा(र्व-आ)न्तर-यामिन्- -मी वर
५,३७.
सर्वान्तर्यामि-रूप- -रः ते ६,
६६.
सर्वान्तर्यामिरूपा(प-आ)-
त्मन्- -त्मा ते ४,१३.
सर्वा(र्व-आ)न्त्रा(ल-अ)नुमति- -तिः
असु ३,४,२८.
सर्वा(र्व-आ)पद्- -पदाम् महा ३,
४; ३६.
सर्वा(र्व-आ)पर- -रम् मैत्रि ६,३८;
७,३.
सर्वापर-त्व- -त्वाद्य मैत्रि ६,२३.
सर्वा(र्व-आ)पहव- -वः अल ५,
११२.
सर्वा(र्व-आ)पाश्र्व-निर्दृष्ट- -दम्
भव ३,२८.

a) °त्मानम् इति निघा. । b) सदा° इति अश्या. संटि. । c) सर्वात्मक° इति निघा. । d) °वंस्याधिधि° इति निघा. । e) °नः स° इति आन. । f) °वन्दु° इति ऋषिः निघा. । g) °रात्मा इति पा. १ पति. शोचः द. ।

सर्वा(र्व-अ)ह-मानिन्- नी तुउ
९, ७.
सर्वा(र्व-आ)हुति- तीः वृजा ३,
१५.
सर्वा(र्व-आ)ह्लादिनी-शक्ति- -क्तिः
शोध ३९६: १२.
सर्व(र्व-इ)च्छा-च्छा महा २, ५८.
सर्वेच्छा-कलना-शान्ति- -न्ती
वरा ३, ३०.
सर्वेच्छा-सिद्धि-साधन- -नम्
सौ ३, १.
सर्वे(र्व-इ)च्छा-जाल-संशान्ति-
-न्ती अत्र ४, ६१.
सर्वे(र्व-इ)न्द्रिय-याणाम् क १, १,
२६; १कौल ३: ४; २कौल ४;
-याणि सु २, १, ३; छां ८, १५५;
१; कै १, १५; ना १; अथ ३, ३;
थ १, २.
सर्वेन्द्रिय-गुणा(ण-आ)भास,
सा-सः भवि १०७; -नम् श्रे
३, १७; गी १३, १४; सा गु ४९.
सर्वेन्द्रिय-वर्ग- -नं मं ३, १, ५.
सर्वेन्द्रिय-विवर्जित, गा- -तः
भवि १०७; -तम् श्रे ३, १७; गी
१३, १४; सा गु ४९.
सर्वेन्द्रिय-विहीन- -नः श्रे ३,
१५.
सर्वेन्द्रिय-ममाहति- -तिः वि
१५.
सर्वेन्द्रियो(य-उ)परम- -मः
मुअ १८.
सर्वे(र्व-ई)स्तिष्ठ-फल-प्र(इ-)
दा- -दा आप ३९८: १.
सर्वे(र्व-ई)त- -तम् भवि ७७; मं
३, १, १.
सर्वेदा-व- -नम् शक्ति ४०२:
१५.

सर्वे(र्व-ई)श्वर- -रः मां ६; वृ ४, ४,
२२; अ ३; कौ ३, १९; श्रे ५४,
६; तुउ १, ९; सुवा ५; नाप ८,
१; १४; ९, २०; त्रिवि १, १; राउ
३, १; शा २, १; जावा ९; तु
१५; कालि ४०१: ६; पी ४२२:
३; १८; सुमु २०; वउ १, ११;
५, ३७; -नम् तुउ ३, ९; सुवा ८;
नाप ९, १७; वा १; महा ४, ७१;
गोउ १; गोच ६५: १; य ३;
सु २९३: ३.
सर्वेश्वरी- -री आव ३९८:
१३; ३९९: १२; विद्या ४.
सर्वेश्वरे(र्व-ई)श्वर- -रः भव ५,
१५.
सर्वे(र्व-इ)ष्ट-साधक- -काय त्रिवि
७, ३७.
सर्वे(र्व-ई)हा- -हाः महा २, ५८.
सर्वे(र्व-ए)क-जननी- -नी नापू २,
५७.
सर्वे(र्व-ए)नो-नियुक्ति- -क्तिः सूता
१, ३.
सर्वे(र्व-ऐ)श्वर्य- -र्यम् वृपू १, १५;
सांस् ५, ९.
सर्वेश्वर्य-अदायि(र- \gt)नी- -नी
आप ३९७: १७.
सर्वेश्वर्य-फल-प्रद- -दम् पं ५.
सर्वेश्वर्य-व्य- -व्यान् ह २.
सर्वेश्वर्य-समन्वित- -तम् शि ६,
२१८.
सर्वेश्वर्य-संपत्त- -त्तः अ ३; शा
३, १.
सर्वे(र्व-ए)पणा(णा-आ)दि- -दिपु
मैत्रि २, १८१.
सर्वे(र्व-ए)पणा-विनिर्मुक्त- -क्तः
सु २५१; नाप ३, १८.
सर्वो(र्व-उ)च्छिन्ति- -त्तिः सांस् ५,

७८.
सर्वो(र्व-उ)क्त(उ- \gt)टा- -टाम् त्रिता
१, ७६; सौ १, १.
सर्वो(र्व-उ)क्त्य-श्रुति- -तेः सास्
१, ५.
सर्वो(र्व-उ)कृष्ट- -ष्टः त्रिवि ८, १८.
सर्वोकृष्ट-व-
सर्वोकृष्टत्व-सर्वात्मकरवा-
(त्व-अ)द्वैत- -तम् तुअ १६.
सर्वोकृष्ट-परम-श्रुति- -प्रद्योत-
मान- -नम् अता ७; मं १, २,
१३१.
सर्वो(र्व-उ)त्तम, मा- -माः नापे ६, ६;
सिशि ३८२: १४; -मम् त्रिता
४, १; -मा विद्या ४.
सर्वो(र्व-उ)न्मादि(र- \gt)नी- -नी
आप ३९६: १७.
सर्वो(र्व-उ)न्मालन- -नम् मं २,
१, ६.
सर्वो(र्व-उ)पकरणा(ण-अ)न्वित-
-तम् शि २, १५.
सर्वो(र्व-उ)पकारिन्- -री दत्ता १, ७.
सर्वो(र्व-उ)पचार- -रस्व वउ ६, २७.
सर्वोपचारो(र्व-उ)पयोग- -गः
सूता ४, ११.
सर्वो(र्व-उ)पद्रव- -वात् वउ ५, ८.
सर्वो(र्व-उ)पनिपद्- -पत्सु त्रिवि २,
८; -पदाम् ते ७, ८५; सु १, १,
४४.
सर्वोपनिपत्-सार- -रम् शा १, १.
सर्वोपनिपद्-अभ्यास- -सम् ते
६, ११०.
सर्वोपनिपद्-अर्थ- -र्थम् पप
४१९: ५.
सर्वोपनिपद्-विद्या- -द्या मै २,
३; मैत्रि २, ३.
सर्वो(र्व-उ)वस्त- -तः पप ४२०: १६

अ) साः इति शब्दः, 'लोकेनः' इति शांभा ५, ८ । b) गार्. (४२०३) सस्व, 'एकजननी->नी' इत्यत्र
दनि, शोधः कर्त्तव्यः । c) 'र्वे' इति निगः? यनि शोधः द. (तु. श्रम्या) । d) 'र्वे' इति निगः? यनि, शोधः द-
(तु. श्रम्या) । e) 'मदिनीयम' इति शब्दाः इ यनि, शोधः द. (तु. श्रम्या, मैत्रि.) ।

सर्वो(र्व-उ)परम- -मं २१;
 सर्वो(र्व-उ)परम- -कम् नाप
 ८,१६.
 सर्वो(र्व-उ)परिहात १। १०,१.
 सर्वो(र्व-उ)प्रसंहार- -रेण तु ४.
 सर्वो(र्व-उ)प्रादान- -नम् सोऽ १,
 ७६.
 सर्वो(र्व-उ)प्राधि-विनिर्मुक्त- -कम्
 ससा १,२९; कठ ४१.
 सर्वो(र्व-उ)प्राय- -यान् त्रिवि ८,१२.
 सर्वो(र्व-उ)प्रे(त) > प्रा- -वा प्रव २,
 १,३०.
 सर्वो(र्व-उ)र्ष- -र्षाम् त्रिता
 २,१९; -र्षे त्रिता ३,१०.
 सर्वो(र्व-ओ)पथ- -धम् तै २,२,१;
 वृ ६,३,१; -धस्य छां ५,३,४.
 सर्वो(र्व-ओ)पथि- -धीनाम् सी १८.
 सर्वैश्चानिचतुष्टयनादिवोधस्व-
 तन्त्रनित्यामलुप्तानन्तम्
 नाप ६,९.
 सर्वैषाप ० सं २१४: १९.
 सर्वेषां - -नम् १थोत ४७; -पात् छां
 ३,१४,३; -रेण भव २,३३.
 सर्वेषी-
 सर्वेषी-कोण-कोटर- -रे
 महा ४,६४.
 सर्वेषे(प-इ)दुग्दि-काद्या(श-आ)-
 श्र-करञ्ज-मयुक्ता(क-अ)श्र-ज-
 -नम् सि ४,५९.
 सर्व-लक्षण- -गम् नाप ४,३८; पप
 ४१८: ३२.
 सर्व-ल(व) > ज्ञा - -ज्ञा सार २६६: ३
 सर्व-लवण- -गम् सि ६,८८.
 सर्व-लाञ्छन- -नम् सार २६६: ८.

सलिल - -कः वृ ४,३,३२; मृ १३;
 -कम् वृ १,१; वृ १,१; छा
 ४; मन्त्रि १३; गोशि ५,२४;
 भा २७; पं ३; वरा ५,३०; सि
 १,२५; गार ४०५: ५; -लस्य
 तु ५७; -लात् गार ४०५: ५;
 -लानि महा ३,५२; वृ १६४;
 चक्र २४; -ले खे ६,१५; दुषा
 ४; शां १,७,२१; गोशि ५,५०;
 वरा २,७५; सौ २,१४.
 सलिल-कण- -याः महा २,७७.
 सलिल-वत् सांज्ञा १६.
 सलिल(ल-अ)वस(प्र) > प्रा- -गाम्
 पा ६,४.
 सलिलो(ल-उ)द्भव- -वः गोपु ३०.
 स-लील- -लम् गुपी ४२०: ८.
 स-लोक-
 सालोक्ष्य-
 सालोक्ष्य-ता- -ताम् कथु
 २,१.
 सालोक्ष्य-मुक्ति- -किम् मु
 १,१,१९.
 सालोक्ष्य-सामीप्य-सारु-
 प्य-सायुज्य- -जयम् व १०;
 तु २९३: १०.
 सालोक्ष्य-सारूप्य-मुक्ति-
 -क्तिः मु १,१,२२.
 सालोक्ष्य-सारूप्य-सामी-
 (व्य) > प्या- -प्या मु १,१,२२.
 सालोक्ष्य(क्य-आ)दि-वि-
 भाग- -नेन मु १,१,१७.
 सालोक-ता- -ताम् छा २, २०, २;
 वृ १, ३; २२, ५, २३; ५, १३,
 १-४; मना २, १५४; ८०४

वृ १, १४; सवि १०; लिल ३;
 राता १, २२; तु २९४: २; स
 ३७२: २०.
 सख- -वृ (प्रभिवधे) द.
 सख- -वृ (प्रिणे) द.
 सखन- -वृ (प्रभिवधे) द.
 सियर्चस्- -र्चसम् तै १, १०; नां
 ४, ३८.
 स-यर्ण-
 सवर्ण-ता- -ताम् सार २७९: २२.
 स-चतु(ल) > ला- -लात् सि ३, ८.
 स-यस्तु- -स्तु गौ ४, ८७.
 स-वासन- -नम् अण १, ६३; नाति
 त्रिवि ५, १०.
 स-वासस्- -साः सार २३५: ५;
 ७, १.
 स-वाह(न) > ना- -नाः पी- ४२२:
 १३.
 स-विकल्प- -रूपः सर ३, २५; ३६.
 सविकल्प-विवर्जित- -तः तेष ७, ५५.
 स-विकल्पक- -कः सर ३, २७; २८.
 स-विकल्प-जाल- -लम् महा ५, ५२
 स-विकार- -राः त्रिता २, १३; -रम्
 गौ १३, ६.
 स-विचा(र) > रा- -रा योव १, ४४.
 स-विज्ञान- -नः वृ ४, ४, २; -नम्
 वृ ४, ४, २; गौ ७, २.
 स-वित(र्क) > कौ- -कौ योव १, ४२.
 सवित् - -वृ (प्रिणे) द.
 स-विद्- -वित् मैत्रि ६, ३५.
 स-विलास > म्सा - -सा त्रिवि ३, ७.
 सविलास-महामूला(ल-अ)विधो-
 (या-उ)दय- -क्रम- -सः त्रिवि
 ३, १.

a) ०कः इति ध्वनः । b) 'सर्वैश्चानिचतुष्टयनादिवोध(प्राः) स्वतन्त्र-नित्यामलुप्तानन्तम्' इति शोधः द. । c) पा. १० पासा - > शः इति शोधः द. । d) = अनुभ - । वृ १, १, १० । e) = ६स । f) विप. वा नाप. वा । वैप १ वद. । g) ०कम् इति मन्त्रि १३ । h) ०कः इति वृ १३ । i) वृ १, १६५, ५१ । j) = ५स । k) समहारे द्वस. । l) तैषा १०, १४, १ । m) तैषा १०, ६४, १ । n) पा. १, १, १० इति शोधः द. (तु. तैषा ७, १०, १) । o) उप. = शवर्ण- । p) उप. = र्वासन(>) ना- । q) उप. = र्वास- । r) वा क्विपिः द. । s) ०कम् इति त्रिता. । t) सकृत् = सविध- इति राती. । u) 'सविलासमूलाविधा' इति त्रिता. ।

सविलास-मूलादिघो(वा-उ)प-
 संहार-क्रम-मः त्रिवि ३,३.
 स-धिपय-यम् मं ५, १, १; त्रिता
 ५,१.
 स-विसर्ग-अंम् सुमु ५.
 स-विसर्गक-कम् द ४.
 सविस्तीर्ण-अं शि ६,१०५.
 स-वृत्त-वृण-पर्वत-अम् १संन्या
 २,१३.
 स-वृष-अम् शि ६,१५१.
 ससव्य-अम् कौ २,१५; जाद ३,९;
 अये मैत्रि ७,११; कौ ४,१७.
 ससव्य-अम् त्रिमा २,३६; शां
 १,३,२; १; जाद ३,४; अये त्रिमा
 २,३६; शां १,३,२; जाद ३,३;
 ४,१३; सु २९४: १४; अयेन
 वल ६,२४.
 सस्य-तस(>) शां १,३,९;
 पम ३,१०.
 सस्य-साधिन्-अधिन् १११,
 ३३.
 सस्या(व्य-अ)पसस्य-अयेन
 १संन्या २,६३.
 सस्ये(व्य-इ)तर-दे त्रिमा २,
 ७०.
 सस्य-कण्ठ(ण-अ)न्त-अन्तम् जाद
 ४,१२.
 सस्य-गुक्क-अकेन शां १,३,५.
 सस्य-दक्षिण-जादी-रय-अयः
 शां १,७,४०.
 सस्य-जादी-अया शां १,७,१४.
 सस्य-जामा(गा-अ)न्त-अन्तम् जाद
 ४,१२.
 सस्य-जेप्रा(प्र-अ)न्त-अन्ता-अन्ता
 जाद ४,१२.
 सस्यजेप्राप्त(य)जा-अजा

शां १,४.
 सस्य-पादा(द-अ)हुहा(ए-अ)न्त-
 अन्तम् जाद ४,२१.
 सस्य-भाग-अं शां १,४.
 सस्य-स्कन्ध-अये शि ५,५१.
 सस्य-हस्त-अस्तः प्रा ४,१.
 सस्यहस्ता(स्त-अ)क्षमाला-
 अस्मा शि ६,११७.
 सस्ये(व्य-इ)तर-रेण जाद ६,
 ३९.
 सस्येतर-ध्रुव(ति-अ)वधि-
 अधि त्रिमा २,७३.
 सस्यो(व्य-ऊ)रु-अरु बरा ५,१७.
 स-ध्याल-अः द ८.
 स-ध्याहति-अतिम् अता ११.
 स-शक्तिक-अम् वल ३,११.
 स-शब्द-अदः नाद ४९; अया २१.
 स-शाय्यो(व्या-उ)पकरण-अणम्
 सार २८४: १८; २८८: ७.
 स-शूर-अम् गी १,४७.
 स-शरीर-अः छां ८,१२,१; अम्
 नाप ८,५; अस्व छां ८,१२,१.
 स-शा(स्वा)>अ-अस्वा: वृष १, ४;
 ४,१५,२३; राव ४,६.
 स-शान्ति-अन्तिम् सु १,१,२९.
 स-शि(स्वा)>अ-अस्म ३ २; नाप
 ३,७७; पम ३,१; अस्व १संन्या
 १, १; वर १; कथु १, १; २,
 २:३.
 स-शैल-यन-कान(न)>अ-अस्म
 शि ७,२९.
 स-श्रीक-अम् रार ३,१; पा ७,९.
 स-श्व-भो(स)>अ-अस्मा नाप ३,
 ५०.
 स-श्व-अक्षर-अम् वृ १,५.
 स-श्व-अङ्ग-अम् शूर, ११; अति

शु १,१४; ३,१५.
 स-सखी-सम्(ह)>अ-अः सार
 २२२: ५.
 स-सङ्ग-
 ससङ्ग-अ-अस्व मांस् ३,७२.
 स-सङ्गति-अति चक्र ४.
 स-सप्त-हीप-अम् त्रिता १,२९.
 स-संप्रदाय-अम् त्रिता २,५५.
 स-संभ्रम-अम् गा २६.
 ससर्परी-अः शि १८१.
 स-सर्वज्ञा(ज्ञ-आ)दि-दशक-
 अम् त्रिता २,५९.
 स-सर्व-संविन्-न्यास-अम्
 निर्वा २९८: १६.
 स-सर्व-संक्षोभिण्या(णी-आ)-
 दि-दशक-अम् त्रिता २,४९.
 स-सर्वसंक्षोभिण्या(णी-आ)दि-
 द्विसप्तक-अम् त्रिता २,
 ५५.
 स-सर्वसिद्धिप्रदा(द-आ)दि-
 दशक-अम् त्रिता २, ५७.
 स-सागर,श-अम् त्रिता १, २९;
 अम् वृष १,३; वृष १,६.
 स-सागरा(र-अ)भ्रम-असप्त-ही-
 (प)>अ-अः शी १७.
 स-साधन-अयेः वृष ६,४.
 स-साध्य-अम् सौ १,३; ३.
 स-सुख-अः शी पा ५,९.
 स-सुप्रीव-धिमीयण-अणम् रार
 २,१५; ८४.
 स-सुर-अः मति १२.
 स-सिन्यबल-वाहन-अः मव १,
 २३.
 स-स्पृण-अणम् वृ २,२,१.
 स-स्पृ(ह)>अ-अः मै ३,२; मैत्रि
 ३,२; ६,३०.

a) = १ स । b) पा. १ शुं इति शोषः द. । c) विप. वैप १ यद. । d) विरोधि. । e) 'सस्यः' इति कश्चा ।
 f) 'अदम्' इति त्रिमा. यत्र. शोषः द. (प्र. अ. अया; वैप. सुता इति अान.) । g) उप. = वरार- । h) वैप १ यद. ।
 i) 'सस्येरी' इति अया. यत्र. शोषः द. (प्र. अ. ३, ५१, १५) । j) 'सर्वज्ञा' इति पा. १ यत्र. शोषः द. (प्र.
 अया ३, ७: १५) । k) 'सारापार्' इति कश्चा. । l) 'स्पृण' इति त्रिमा. ।

सस्मेर- नी पा ५, १.

सस्य^० -स्यम् क १, १, ६^१; पितृ १, १५^१; १५^१.

सस्य-संपत्ति- -त्तिः शि ६, १५८.

सस्व-स्वन- -नम् शं १, ७, १४; यो १, २७, ३३.

✓सह^०(वधा.), >साहि, सहस्य व ४६०: १५१^१; १७१^१; साध्याम व ४५९: २२१^१.

साहय-साहय सां २१५: २२.

सह-

स(ह>)हा-वत्- -वान् व ४६०: ६१^१.

सहान- -नम् शां १, १.

सहमान, ना- -ऽन्म मना २, १; व ४६१: १४; -न्ता छां ३, १५, २.

सहस^० -हः मना २, ३५१^१; व ४५९: २११^१; ४६१: ११^१; -हसा नाप ३९९; योशि १, ६२; २, १४; सूता २, १०१^१; व ४५९: २२१^१; गी १, १२.

साहस- -सम् नाप ४, ३०.

सहस-कृत- -तेन व ४५९: २२१^१.सहस-वत्- -वता व ४५९: २२१^१.सहिष्णु- -ष्णुः वै ४, १^१.सहुरि^० -रिः व ४६०: ६१^१; -० रे व ४६०: ११^१; १५१^१; २२१^१.

सोढव्य- -व्यम् महा ४, २६.

सोढुम् गी ५, २३; ११, ४४.

२सह^० हं ११; १४; क शां^१; २, ३,

१०; प्र ३, १०; सुं २, २, ५; तै

पां^१; १, ३, १^१; छां १, १०, १;वृ १, ५, १७; श्रे शां^१; गौ ४,३५; मना २, ७२१^१.

सह-कारिन्- -रिणः सार २४८: २२;

२४९: ३; ४; -नी सार २२२:

११.

सहकारि-रव- -त्वेन ब्रसू ३, ४,

३३.

सहकार्य(रि-अ)न्तर-विधि-

-धिः ब्रसू ३, ४, ४७.

सह-चारिन्- -रि सार २८८: ६.

सहचारिणी- -णी सार २८६:

१२; २८८: ४.

सह-ज, जा- -जः बरा ५, ७५७; -जम्

व २; नाप ४, ३८१^१; महा ५,

१८६; योशि १, १०७; श्रिता १,

७४; शि १, १२; गी १८, ४८;

-जा गौ ४, ९; शां ३, १; -जाः व

४६१: ११^१.

सहज-बल-

सहजबल-क-

सहजबलिका-

सहजबली-

!सहजोली^०-

-ली १यौत २७.

सहज-भाव- -वाः सार २८७:

२०.

सहज-संबलित- -तः सार २८३:

१८.

महज-संज्ञा-

सहजसंज्ञित- -तम् तै १, २१

सहजा(ज-अ)नन्द- -न्दे मं २,

१, ८.

सहजा(ज-अ)वस्था- -स्था महा

४, ७७; ७८; बरा २, ७६; ७७.

सह-भोजन- -नम् इ १३: १३.

सह-व(ज्ञ>)ज्ञा- -ज्ञाः गी ३,

१०.

सह-वासिन्- -सिनम् पप ४१८: ७.

सह-सूक्त-वाक- -कः २संन्या १६:

१३१^१.

सह-स्थित- -त्रिकोणो(ण-क)र्ध्व-

गमन- -ने ध्या ९४^१.

सहा(ह-अ)य, या- -या व ४६६: ८;

-येन नाप ३, ४४; सार २४०:

१९.

साहाय-वत्- -वान् शां ३, ११.

सहदेव^० -वः गी १, १६.सहस्र^० -स्रम् छां ४, २, ३; ४; ४, ५;

५, १; ६-३, १, १; ४, २-७; ३,

१४-१६; ३३; ४, ७; ६, ४, २४;

मना २, ५७१^१; कौ ४, १; ऋषि७९; अण्व १, २^१; दजा १, २०;

गह २५; इ १४: २२; २प्र ३३:

१६१^१; पा ४, ७^१; ७, २; २शिसं१३१^१; १४; चक्र ४; -स्रस्य वै१, १; मैत्रि १, २^१; मैत्रे १, १^१;-सा वृ ३, ९, १^१; -स्त्राणाम्योच् १५^१; इ १४: २२; -स्त्राणि

छां ७, २६, २; वृ २, ५, १९; लना

३४; ध्या ५१; ६२; योच् ३२;

बरा ५, ३; च २१: ११; -स्त्राव्

मना २, ३८१^१; ३९१^१; ४०१^१;

a) = ६स। b) वैपश् यद.। c) वा. किवि. द.। d) ऋ १०, ८४, २। e) ऋ १०, ८४, ३। f) ऋ १०,

८३, १। g) ऋ १०, ८३, ४। h) शौ ७, ६५, १। i) तैत्र्या १०, ३५। j) ऋ १०, ८४, ६। k) ऋ १, ५०, १३।

l) ऋ १०, ८३, ६। m) ऋ १०, ८४, ५। n) अण्व. वैपश् यद.। o) तैत्र्या ८, १, १। p) तैसं ५, ५, ९, ३। q) ०जम्

इति अख्या. संटि.। r) पाप २, २, ११। s) तु. गप. पुट ७८। t) शौ ७, १०२, ६। u) ०णाधर्म इति निसा.,

०णार्थं इति अख्या. संटि.। v) सहज इति अख्या., 'सहजया' इति निसा. संटि.। w) व्यु. ? = पाण्डवविशेष-।

x) तैत्र्या ३, १०, ८, २। y) 'सहस्रकृतवः' इति योत्रा १, १, २२। z) मा १७, २। a') ०साहस्य इति संटि.।

b') ०साहस्य इति अख्या.। c') काठ ३५, ६^१। d') ०स्त्राणि इति अख्या.। e') तैत्र्या १०, ४८, १। f') तैत्र्या

१०, ४९, १। g') तैत्र्या १०, ५०, १।

चि २६; -स्त्राय पा ४, ७; -स्त्रेण मना १, ८^{१०}; शि ६, २०७; व ४६४: ६१^{१०}; ७१^०; भव ३, १९; -स्ये इ १५: १; गी ७, ३; -स्त्रैः सार २६९: २२.

सहस्र-क- -कम् इ १९: ३.

सहस्र-कमल- -ले थो १, ८६.

सहस्र-कला(ला-अ)वयव-

कल्याण- -णम् मुद्र २.

सहस्र-किरण- -णाय सू २२.

सहस्र-कुरवस(>) वपू १, ४; गी ११, ३९.

सहस्र-कोटि-योजना(न-आ)वतो- (न-उ, ज्ञत-विन्मय-प्रासाद- -दम् त्रिवि ७, २१.

सहस्र-नायत्री- -त्रीम् नाप ४, ३८. सहस्रगायत्री-वैक- -कम् नाप ४, ३८.

सहस्र-गुण- -णम् शां १, २; जाद २, १५^१.

सहस्रगुणित- -तम् शि ६, २९; ३१.

सहस्र-चरण- -णम् भ २, ३.

सहस्र-दल-पद्म- -यो राधा १, १६.

सहस्र-दल-संख्यात- -तम् योचू६.

सहस्र-दग्- -दग् रा१ ४, ३८.

सहस्र-धा वृ ४, २, ३; ३, २०; धी ४, १९; नृत् ८, ५; सुधा ४; वा १९.

सहस्र-धा(रा)>र- -रः, -रम् मना २, १०१^१.

सहस्र-नामन्- -सिभि रा४ २५: ४; ९; १०; १०; -मानि अईमा ११.

सहस्र-शिकुञ्ज- -जाः सार २५३.

११; -नीः सार २६९: ४; १४.

सहस्र-पृष्टि- -पृष्टयः सार २७४: ७.

सहस्र-पर(म)>मा- -मा मना १, ७; व ४६४: ३.

सहस्र-पा(द)>द्- -पात् श्वे ३, १४^१; अशि ६, ११; सुवा ११^१.

सहस्र-पान- -नात् गार ४०८: १९.

सहस्र-प्राकार- -रैः त्रिवि ६, २१.

सहस्र-बाहु- -हवे व ४२८: ८; १०; १२; १४; १६; १८; १९; २१; २३; ४२९: २; ४; ६; -हुः सुवा १; -हो गी ११, ४६.

सहस्र-भानु- सहस्रभानु-मत्- सहस्रभानुगच्छ-छुरि(न)>- ता- -ना मवा ७.

सहस्र-भुज- -जैः व ४३४: १९.

सहस्र-भुग- -पर्यन्त- -न्तम् गी ८, १७.

सहस्र-योजन- -नात् गार २५९: ७.

सहस्रयोजन-परिणाह- सहस्रयोजनपरिणाह-वत्- -वति सार २८१: २.

सहस्रयोजन(न-आ)यत- -तम् सार २८४: ९.

सहस्र-रदिम- -दिमः प्र १, ८; मै ५, ८; मैत्रि ६, १८; अशि १.

सहस्ररदिम-परिवृत्त- -तः प्रा २, १६.

सहस्र-वर्ष- -र्षे त्रिवि १, १.

सहस्र-वाग्द- -वदः सुद्र १, ११^१.

सहस्र-वास(>) सं २, १, १; पै ३, १; अथा ३८; सार २४९: १५; नी १, ११^१; शि ६, १८३; पृ १९; गी ११, ५.

सहस्र-वा(सा)>ख- -खे तै १, ४, ३.

सहस्र-वाता- -त्याः गी २५.

सहस्रशाखा(खा-अ)ध्यायिन्- -यो सार २७८: १९.

सहस्र-शिखर-मेघ- -नोः सं ९.

सहस्र-शीर्ष- -र्षम् मना २, १३, ११^१; महा १, ११^१; भ २, ३; च २०: ११^१; नापू १, १६.

सहस्र-शीर्षन्- -र्षां श्वे ३, १४; सुवा १; सुद्र १, १.

सहस्र-संवत्सर- -रम् त्रिवि १, १.

सहस्रसंवत्सरा(र-अ)न्त-क्रतु- -नुना मैत्रि ६, ३६^१.

सहस्र-संख्या- -ख्यया मु १, १, १३; रा ४२३: १०; १९; २१; ४२४: ५; ८; ११.

सहस्रां(स-अं)शु- -शुः सूता १, ६.

सहस्रा(स-अ)क्ष- -क्ष नी २, १०^१; -क्षः श्वे ३, १४^१; सुवा ११^१; -क्षम् महा १, ११^१; भ २, ३; च २०: ११^१; -क्षस्य मना १, ५१^०; -क्षाय नी२, ४१^०; व ४६३: ९; -श्रेण मै ५, ८; मैत्रि ६, ८.

सहस्रा(स-अ)क्ष(र)>रा- -रा ह १६; चक्र ३.

सहस्रा(स-अ)क्षुर-शाखा(खा-आ)- -म-फल-पल्लव- -शालिन्- -लिनः सु २, २, ३६.

सहस्रा(स-आ)दित्य-संकाश- -नाम् सार २८०: १४.

सहस्रा(स-आ)नन्द-प्राकार- -रैः त्रिवि ६, २३.

सहस्रानन्दप्राकार-परिवेष्टित- -तम् त्रिवि ७, २.

सहस्रा(स-अ)न्त- -न्ताः रा१ १, ९.

सहस्रा(स-अ)र- -रः त्रिवि ७, ३०^१; ३६; नात् २, १०; व ४२८: १०; १२; १३; १५; १७^१; १९; २१;

a) मा १३, २०; तेसा १०, १, ८। b) मा १३, २०। c) मा १३, २१। d) तेसासा १०, ६७। e) तेसा १०, १, ७। f) अ १०, १०, १। g) विमभिः १० इति ज्ञान., J.C.। h) उप. = १४१-। i) सजा इति पा.। j) यनि. सांया १.। j) मा १६, १। k) तेसा १०, ११, १। l) म्वाः क्रु इति सात.। m) मा १६, १३। n) विष्वा इति तेसा १०, ११, १। o) तेसा १०, १, ५। p) मा १६, ८। q) अ १, १६५, ५१। r) ०२ इति अघ्या. संटि.।

२३; ४२९, २; ४; ६; ४५७ : ७;
९; ४५८ : १३; ४५९ : १९;
४६४ : २३; -रा सु २९४ : १;
-रे सं १, ४, १.

सहस्यार-चक्र- -कम् प्रिवि ७, ७.
सहस्यार-ज्वलज्-ज्योतिस्त-
-तिः अता १३^०.

सहस्रा(स-अ)र्ण- -र्णम् नाद ५, १^०.
सहस्रा(स-अ)वधि-मुखा(स-अ)-
-न्त- -न्तैः प्रिवि ६, ७^०.

सहस्रा(स-अ)वधवा(व-अ)न्यत-
-तः नाप ८, १; सु २.

सहस्रा(स-अ)वधेन- -माद् ग १८.

सहस्रो(स-उरुका)कृ- -रुकाय
प्रिवि ७, ४२.

सहस्यत्- / सह द.

सहाय- रमह द.

सहायत्- / सह द.

सहास- -सम् नाप ६, ३२.

१-२सहित- सं/धा द.

सहिष्णु-सहुरि- / सह द.

स-हृद(य)या- -याम् प्रिता १,
७८.

स-हेतुक- -के वरा २, ६८.

स-हे(ता)ल- -लम् गुयो ४२० : ८
१सा (< १स-) तद्- द.

२सा^० ह्यो १, ३, ४; ६, १; ७, १-४; वृ १,
३, ३२.

सां^० व ४४५, १६; ४४७ : १; सां-सां^०
व ४३७ : २.

सांयत्सरिक- सवसर- द.

सांसारिक- सं/स्य द.

सांसिद्धिक- सं/सिधु द.

सांस्तिक- सं/स्य द.

सांहय- सं/हय द.

साक- -कम् अशि ४, १७; वटु ३ १६ :

१०.

सा(स-अ)कार- -रः प्रिवि २, १५; ४;
६; रापा १, १७; -रम् प्रिवि २,
१; १३; -रस्य प्रिवि २, १२.

साकार-निराकार- -रौ प्रिवि २, ११;
१३.

साकारनिराकार-भेद-विरोध-
-धैः प्रिवि २, १२.

सा(स-अ)कृत- -कम् पा १, ९; १०, ६
१साक्ष- -क्षार्थं वृ ३, ४, १; ३; ५, १;
शु १, १३; ३, २३; वृ २५; ते

६, ६४; प्रिवि ३ १; १योत १७;
प्रिमा २, १६०; द्य २७; प्रिवि

५, १२; ८, १५; पे ४, ३; महा
४, ८५; योशि १, २०; ४, २;

१आ २०; पाशु २, २७; कठ
२३; वृह ३६; ४४; जाद ४, ६२;

६, १६; १७; ७, १४; ८, १; १०,
८; ता २, ३; ग २; गोठ १६;

कृ १०; २३; राधा ४, ३; गोच
६८ : १०; नाप ४, ३०; ५, २९;

गाठ १, २३; सार २५५ : ४;
२५७ : १७; २७७ : १; पारा

१८; वपं ३ १३; ४; रि ७, ८०;
वपु २, ५; अर्ध १, २, २८; ४,
२५; गौ १८, ७५.

२साक्ष-

साक्षिन्- -क्षिणः सर ३, १९;
-क्षिणम् मैत्रे १, ४, ८; कुं २३;

कठ १२; सु १, १, ३; -क्षिणा कठ
२१; -क्षिणि सर ३, २०; -क्षिणे

सार २४७ : १०; -ह्यौ वृ ६, ११;
मैत्रि ६, १६; कै १, १८; अ ३,
७; वृ २, ३६; ५, १२, १०;

११; १३; ससा १, ३; २५; २; ४;
ते २, १८; प्रिवि २६; २आ ३;

आयो ३; १९; नाप ६, १^१; महा
२, ७३; ६, ८०; योशि ५, २२;

अक्ष ४, २६; पाशु २, ७; १अव
२५; फ ८; पं ३६; गोठ १३;

६५; राधा ४, २४; हे ७; मव
२, २७; वट ५, ५२; गौ ९, १८.

साक्षिणी- -णी गु ६९.

साक्षि-चैतन्य- -न्यम् पे १,
६; -न्ये वरा २, ५.

साक्षि-रा- -वया शु ३, ३.

साक्षि-रव- -रवम् ते ३, ३४;

सांस् १, १६१; सांका १९; -व्यावृ
वृ २, ५; ६; ७; सर ३, १६.

साक्षि-भाग- -भाः इ १० : २१.

साक्षि-भूत- -तः १आ १;

-ते महा ५, ५५.

साक्षि-रूप- -पेण अक्ष ४,
३३; वृह ४२.

साक्षिरूप-क- -कः सभा ३

साक्षिरूप-वा- -वया

पाशु २, ४५.

साक्षि-वद् महा २, ५१;

१संन्या २, ४०.

साक्षि-स्वरूप-

साक्षिस्वरूप-स्व- -स्वावृ

जाद १०, ५.

साक्षि-हीन- -नः ते ५, ५९.

साक्ष्य-

साक्ष्य-घर्म- -र्माः कुं २ ३

साक्ष्य-वस्तु-विहीन-

साक्ष्यवस्तुविहीन-

स्व- -स्वावृ ते ३, ३४^म.

साक्ष्य-साक्षि-हीना-

(न-आ)सम्- -स्मा ते ४, ५१.

साक्ष्य(चि-अ)क्ष- -क्षे वरा
४, ४.

a) ० रे जलज्यो इति निषा. । b) ० र्णमती इति निषा., अक्ष्या. पा. १ यनि. च '१हृत्' इति च बोधः
द्र. (वैतु. ० साक्ष्यम् इति ज. c.) । o) सदस्यव इति ऋचिक्वः निषा. पा. १ । d) मलो. कस. । e) = (स। f) वा.
क्रि.व. द. । g) 'सामन्-' इत्यस्य पूर्वशः । h) = नीजमन्त्रविरोध- । i) तु. गप. पृ २३३ c । j) वैप १ यद. ।
k) = प्रत्यय- । वैप १ यद. । l) इनिः प्र. (पा ५, २, ११) । m) साक्षिन्- -निषा. १ यनि. बोधः द. (तु. अक्ष्या.) ।

साक्ष्य(वि-अ)वस्था- स्था भव ५, १०८.	-राणाम् वउ ३, ३१; -रे मन्त्रि १७; ते ६, ९६; आशो १७; योधि ६, ४१; चू १७.	सा(स ^० -अ)ज्य- -ज्यम् जा ४; नाप ३, ७७; पप ४१८: १५; भ २, २४; या १, १ ^१ ; -ज्यै: भ १, ३.
साक्षव	सागर-प्रतिभासित- -न: अर्द्धे १०. सागरो(र-उ)दर- -रम् वउ ४, ३७.	सा(स ^० -अ)ञ्जन- -नम् अञ्ज ३, २३.
साक्षाच्च-क्ति- -क्ति: सी ११; ३४ ^१ .	सागरो(र-उ)दर- -रम् वउ ४, ३७.	सांजीवी-, सांजीव्य- सं/जीव् द.
साक्षात्/कृ	सा(स ^० -अ)ग्नि- -ग्नि गोपू १२१ ^१ .	सा(म ^० -अ)णिमाद्य(दि-अ)ष्टक- -कम् त्रिता २, ४८.
साक्षात्-कार- -र: वरा २, ४१.	सा(स ^० -अ)ग्नि- -क: इ १३: २२; -का: सार २३१: २०.	सा(स ^० -अ)ति-रहस्य- -स्वम् त्रिता २, ६५.
साक्षात्कारा(र-अ)नुभव- -व: नि २९ ^१ .	सा(स ^० -अ)ग्र- -ग्रम् शि ६, ४; ३२; ३५; ६५; ६९; २०७; २१८; २६२.	सात्त्व-, सात्त्विक- सत्त्व- द.
साक्षात्कारा(र-अ)र्थ- -र्थे	सा(स ^० -अ)ग्रिम- -मौ त्रिता ३, ७.	सा(स ^० -आत्मक>)त्मिका- -का सी ६१ ^१ .
म ४८: १०; १६; २१; ४९: ५; १२; २०.	सांकर्य- सं/कृ द.	सात्य- १सत्य- द.
साक्षाद्-बुद्धि- -द्वि: सार २७९: १४.	सांस्कृति-, सांस्कृती-, सांस्कृत्य- संस्कृति- द.	सात्यकि- ३सत्य- द.
साक्षाद्-ब्रह्मन्- -ह्य ब्रवि २९; गोउ १९; वरा २, २१; राधा ४, १; -ह्यणि शु १, ४.	१-३सांख्य- सं/ख्या द.	सात्वत् ^m - -तान् भव ५, १७.
साक्षाद्-विज्ञानिन्- -नी महा ४, ७६; वरा २, ६३.	४साहस्य ^{1b} - (<सह ^{1b} -) साहस्यायन-	सादन-, सादन्य- √सद् द.
साक्षाद्-विधि-मुख- -स्व: सु २, २, ५६.	साहस्यायन-स-गो(त्र>)त्रा- -त्रा मना २, ३५ ^१ .	सा(स ^० -आ)दर- -रम् ^m ते ६, ११०; ब्रवि २२; अञ्ज १, २; १७; यो १, ३; जाव ६, १; सु २, २, ३३.
साक्षान्-नारायण- -ण: नाप ४, १४ ^१ .	सा(स ^० -अ)ङ्ग- -ङ्गम् वृपू १, ६; ११; १३; १४; रार ३, १; वपू ३, २; -ङ्गा: वृपू १, ४; ४, १५, १३; राउ ४, ६; भ २, २६.	सा(व>)दा ^० - सादा(द-आह्वय>)ख्या- -ख्याम् वृजा ४, १९.
साक्षान्-माया-	साङ्ग-भावन- -ना अञ्ज ५, ८२.	सा(स ^० -आ)दि- सादि-त्व- -त्वम् सांप् ५, १९.
साक्षान्माया-म(व>)यी-	सा(स ^० -अ)ङ्गुष्ठ-योग-	सादि-संसार-श्रुति- -त्ते: सांप् ५, १५.
-यी सी ३ ^१ .	साङ्गुष्ठयोग-सस(>): त्रिता ३, १२.	सादिविद्या- २स द.
साक्षान्-मोक्षै(ज-ए)क-सा- धन- -नम् नाप ६, २१.	सा(स ^० -अ)ङ्गो(त्र-उ)पाङ्ग-कले- घर- -रम् शा १, ४.	साहस्य- सहस- द.
सा(स ^० -अ)दर- -रम् त्रिता १, ४०.	सा(स ^० -अ)ङ्गो(त्र-उ)पाङ्ग-वेद- -देपु सर २, २.	√साध्, >धि, साधयति वृउ ९, ११; अञ्ज ४, ५; ७; शि ७, १२१; स ३७८: २; सांका ३७; साध- यति यो २, ४३; साधयामि त्रिवि ८, १३; साधय-साधय
सासिन्-, साधय- १साव- द.	सांमहत्वी- सं/एर, पद् द.	
सागर- -र: सा २१६: १९ ^१ ; -र: अदे १०; गी १०, २४; -रम् योधि १, ६३; -रा: भाष; ह्युपू२.	सा(स ^० -आ)न्वार- -र: इ १५: १२.	

a) *वम् इति अच्चा. | b) गृह् (इ४४१) सत्य. 'नारायण-> -ण:' इत्यत्र यति. शोष: कर्तव्यः। c) गपू. (इ६५९) गरय. 'मायामयी-> -यी' इत्यत्र यति. शोष: कर्तव्यः। d) = ६स। e) व्यु. १ = समुद्र-। f) सत्य. सर्व-इत्यनेन समस्तं द. | g) द. गपू. इ३८८h | h) पा ४, १, १०५। i) = ३सह- (=गोत्रप्रवर्तक-श्रुतिविशेष-). | j) तैश्चाप्या १०, १५। k) ह्या^१ इति निष्ठा गतिः। l) 'उन्न(व>)या-> -या', 'नरकामिका-> -का' [नर- =रमणा(ए-अ)कृद्-इति उन्न] इति अच्चा! यति. व 'उन्नायन-कर(>)री-> -री' इति व द्विपदः शोषः द. (व. निष्ठा.)। एतदनु गपू. (इ१८१) 'उन्नया-> -या' इत्यत्र यति. शोषः कर्तव्यः। m) व्यु. १। n) वा. द्विवि. द.। o) व्यु. १ = देवोविशेष-।

सां २१५: १५; व ४५७.१८;
साधयेत् मुवा ३; ग १८; सता
६,११.
साधयिष्यति राठ ५,११.
साध्यते योरा ४.
सीपधेम अ६ १५; सीपधातु
अ६ ४५.
साधक-कः गी २,३२; योशि १,
६६; १३१ ३१; त्रिता ३,३५;
५,१०; यो १,८३; सता ६,५;
११; रा ४२५:२०; अवि १०;
-कम् योचु ११८; रा ३,१; रापु
४,४१; शां १, ७, ६; -कस्य
१योत १२३; -कानाम् रा ५,
११; रापु ४,२; यु ५; -के योशि
१,६४; १२०; -कैः स्व ६२:२.
साधकतम-
साधकतमन्व-
साधकतमन्व-योग-
-गात् सांस् २,३९.
साधका(क-अ)धम- -मः १योत
२२.
साधका(क-अ)भाव- -चात्
सांस् ६,४८.
साधन- -नम् नाप ६,३३; वरा २,
३; सार २३०:२:५; २३६:१;
२४८:२३; २७८:७; गुषोष्ठ २०:
२; सांस् १,१३८; -नानाम् ते
५,८१; -नात्ति सार २५६:२२;
२९०:४; -नेन योशि १,१५३;
सार २२६: १५; १७; २४३:
५; २४८:२३; २५७:११; २८२:
१७, २८५: ११; १२; -नैः नाप
६,२२.
साधन-चतुष्टय-संयत्त- -सः
नाप १; २; ५, १; मं २, ४, ४;
१संग्या २, १; १३; -चाः सु १,

२, ६.
साधन-निर्मुक्त- -कः ते १, ३९.
साधन-रूप- -वाः सार २९२:
३; ११.
साधन-वट-
साधनवट-भागद्वीरवट-
-डी सार २२१: १५.
साधन-संसिद्धा- -द्वा- -द्वाः
सार २५०: २३.
साधन-सिद्धा- -द्वा- -द्वाः सार
२२६: ९; १२; २८८:२; -द्धम्
सार २२७: ६; १९; -द्वा सार
२२२:३; २८५: १०; २८८:
५; -द्वाः सार २३०:१; २३८:
१३; २४१:१; २५०:१६; २२:
२५२: १३; २५३: १४; १५;
२५५:५; २५९: ११; २६२:
१९; २७५:९; २८०:१६; २८२:
१६; २८४: १७; २८८:१.
साधनो(न-उ)द्वा(व)- -वाः
योशि १,१५३.
साधनो(न-उ)पकारक- -काः
सार २८०: २१.
साधयत्- -यन् त्रिवि ७५.
साधित- -तः योरा ४; -तम् ते ६,
१०३; त्रिवि ७,४९; -ते योशि
१,१३५.
साधु- -ध्वः छां २, १, ४; ३, १९, ४;
इ १०: १९; सार २३०: १६;
२४३: १९; २५७: ५; -धुं क
१, २, ११; ते २, ९, १; छां २, १,
१; ३; ४; ४, १, ४; ६; ७, २, १;
७, १; ४ ५, १२, १; मना २,
५, १५; कौ ३, ९; ते १, ३८; नाप
५, २४; महा २, २; अक्ष ६, ७५;
जावा ३; कलि १; सु १, १, ७; इ
१०: २१; १५: ८; का ३; सि

१, २; -धु-धु सु १, १२; त्रिवि ३,
२; ८, १८; -धुः ४ ४, ४, ५; गी
९, १०; -धुना छां २, १, २; वृक्ष,
४, २२; कौ ३, ९; महा ४, २, १;
-धुभिः अध्या ४७; -धुषु गी ६,
९; -धुनाम् सार २२७: ९; १०;
२३६: १९; २१; २९१: २; गी
४, ८; -० धो महा ६, ५४.
साध्वी- -ध्वी महा ४, ३८.
साधिष्ठ- -धम् छां ४, ९, ३.
साधीयस- -यः ह्याग २५: ५.
साधु-कारिन्- -री वृ ४, ४, ५.
साधु-कोण- -णम् सता ५, ४.
साधु-जीवित- -ताः महा ३, १४.
साधु-त्व- -त्वे नार २.
साधु-प्रशांसा-पूर्वक- -कम्
त्रिवि १, २१; ८, १८.
साधु-भाव- -वे गी १७, २६.
साधु-भक्ति-योजित- -तम् मृ३.
साधु-युवन्- -वा ते २, ८, १.
साधु-वृत्त- -त्तेषु आध ४.
साधु-वृत्ति- -त्तयः महा ४, १९.
साधु-वैश- -शाम् भव १, ५४.
साधु-शास्त्र- -शाणाम् अक्षि १८
साधु-संगति- -तिः सु २, २, ४४.
साधु-संगम- -मः महा ४, २.
साधु-सिद्धि-(द-उ)द्वा- -द्वाः
अक्ष ४, ६; वरा ३, २९.
साधु(धु-अ)कंठक- -कः -ते छां
८, ९, १, २; -तौ छां ८, ८, २; ३.
साधु(धु-अ)साधु-कर्मन्-
-कर्माम् कठ ३५.
साध्य^०- -ध्यम् सार ३, १; रापु ४,
४१; त्रिता ३, १९; -ध्यस्य गी
४, २०; -ध्याः सुं २, १, ७; छां
३, १०, १; मैत्रि ७, ४; मवा
१०५; गी ११, २२; -ध्यानाम्

a) ०धाम इति ऋ १०, १५७, १। b) ०चीकूलपाति इति ऋ १०, १५७, १। c) क्विप् वा. क्विप्. द.।
d) ०धुः इति आन.१ यनि. शोचः द. (तु. नि.सा.)। e) ०तैश्चा १०, ६३, १। f) सकृत् ०ध्याः इति वे.। g) ०प्रशासा^०
इति अश्या.१ यनि. शोचः द. (तु. नि.सा.)। h) ०भाय. वा गणदेवताविशेष- वा। i) ऋ १, १६४, ५०।

छा ३, १०, ३, ४, ध्येन वृजा ४, ४.
 साध्य-गर्भित- -त्तम् त्रिवि ७,
 ३०.
 साध्य-स्व- -स्वेन सांम् १, ८२.
 साध्यावा(त्व-श्रा)विशेष-
 -पात् साम् १, ८५.
 साध्य-नामन्- -मानि सार ३, १.
 साध्य-सम- -मः गौ ४, २०.^१
 साध्या(पय-श्रा)कर्मण- -णाय
 दत्ता २; व ४५६ : ६.
 साध्या(पय-श्रा)द्या(दि-श्रा)कर्म-
 ण-यद्- -रेखा- -स्वाम् त्रिता
 २, ४१.
 साधर्म्य- -सधर्म- ६.
 सा(स-श्रा)धान- -नम् वृ २, २, १०.
 सा(स-श्रा)ध.र- -रः वृत्त ३, ८; पा
 ५, १०.
 साधारण- -णः राष्ट्र ४, ५; -णम्
 वृ १, ५, १; २; शि ५, १५.
 साधारण-शब्द-विशेष- -पात् त्रस
 १, २, २४.
 साधारण-स्वरूप- -पः पाशु १, १०.^४
 साधित- ✓साध् द.
 सा(स-श्रा)धिभूता(त-श्रा)धिदेव-
 -वम् गौ ७, ३०.
 सा(स-श्रा)धि-यद्- -नम् गौ ७, ३०.
 साधिष्ठ- ✓साध् द.
 सा(स-श्रा)धिष्ठान- -नः पा ५, १०;
 -नम् वृ ३, २.
 साधीयम्-साधु-साध्य-✓साध् द.
 सा(स-श्रा)नक्ष-कुसुमा(म-श्रा)ध-
 (दि-श्रा)ष्टक- -कम् त्रिता २,
 ५३.
 सा(स-श्रा)नन्त- -न्तः राष्ट्र ४, ६१.
 सा(स-श्रा)नन्द- -न्दः अम ३, १८;
 -न्दम्, -न्यौ पा ५, ९.

सा(स-श्रा)नन्द-कला- -स्वाम् विद्या
 ३.
 सातु- -नो मना १, १५९.^१
 सातु-मव- -मन्तः पा ६, ५.
 सा(स-श्रा)नुग- -गः राष्ट्र ५, ९६; शि
 ६, २०३.
 सा(स-श्रा)नुज- -जः राष्ट्र ५, ९०;
 -जम् गौ ३४.
 सा(स-श्रा)नुभव- -वः सार २, ५६; ४;
 -वाः सार २, २१ : २३; २, २२ :
 १७; १९.
 सा(स-श्रा)न्तःकर(ए>)णा- -णा
 सांका ३५.
 सा(स-श्रा)न्तःपुर-परिच्छद- -दः
 शि ६, ९२.
 सा(स-श्रा)न्तराल- -खानि त्रिवि ७,
 ४२; -लैः त्रिवि ७, ४३.
 सान्द्र- -न्द्रम् पं ३.
 सांध्य- सं✓ध्य द.
 सान्धिष्य- संनि✓धा द.
 सान्निपातिक- संनि✓पत् द.
 सा(स-श्रा)पेक्ष-
 सापेक्ष-स्व- -स्वात् त्रस २, १, ३४.
 सातभूमिक- सतन्- ६.
 साफल्य- सफल- ६.
 साभाव्य- सभाव- ६.
 सा(स-श्रा)भिप्राय- -येण सार २, ६१;
 १८.
 सा(स-श्रा)मिमाल- -नाः स्व ६१;
 १३.
 सा(स-श्रा)मिलाप- -नौ सार २, ८९;
 १०.
 साम^{१५}- -स ए १०.^१
 सामन्^{१६}- -म सुं २, १, ९; तै १, २,
 १; २, ३, १; ३, १०, ५; छा १, १,
 २; ४; ५; १, ४; ८; ४, ४; ९, १;^१

२^५; ४^५; ५^१; ६; ८; ७, १^५; ४^५;
 ७; ९^१; ८, ५^१; ६; ७^१; ८; २, १, १;
 ३; ४; २, १; ३; ३-७, १; २; ८, १;
 ३; ९, १^१; ८; १०, १; ६^१; २, १, १;
 २; २, ४, ३; ७; १, १; वृ १, ३, २२^५;
 २८; ६, १-३; ५, १३, ३^१; ६, ४,
 २०; मै ५, ५; मैत्रि ६, ५; मना
 २, ७९^१; अशि १, ७; कौ २, ६;
 वृजा ५, १^{१०}; वृ १, ६; ७; ९^१;
 १०; ११^१; १२; १३^१; १४-१६;
 मन्त्रि ९; सुद्र ३; अथ्य ५; सू
 ११; त्रि १६; गरु ११^{१०}; २ प्र
 ३४; ३; १०; १ शिसं ५९^१; २ शिसं
 ६९^१; वपु १, ६^१; ७; २, १; ३,
 १^१; गौ ९, १७; -मनी कौ १,
 ५; -मभिः प्र ५, ५; ७; अ १;
 वृ २, २; वृत्त ३, ४; -मभ्यः
 छां ४, १७, ३; -मानि प्र २, ६;
 तै १, ५, २; ८, १; छा ३, ३, १;
 २; ४, १७, २; ६, ७, २; वृ १, २,
 ५; ५, १४, २; मना २, १४^{१०}; कौ
 १, ५; ३, ६९^१; वृजा ८, ५; वृ १
 ५, १८; सुभा ६; सौ २, २९^१; ए
 ७; इ ११; १३; छाग २, ३; ३; गा
 ३; गु २९; वृ ५, १७; -स्रः छां
 १, १, २; ४, ३; ८, ४; २, १, १; ९,
 २-८; २२, १; वृ १, ३, २२^१; २५^१;
 २६^१; २७; ५, १३, ३; वृ १, ३;
 ६^१; ८^१; २, २; सौ २, ५; सु १,
 १, १३; छाग २, ३; २; वपु १,
 ६^१; २, १^१; -न्या छां १, ३, ८;
 २, १, २; वृ ४, १०; अथ्य
 ३; -स्रम् छां १, १३, ४; ४,
 १७, ६^१; मना २, १४^{१०}; २ प्र
 ३६; २०; सता ३, ४; गौ १०,
 ३५; त्रि छां १, ४, ३; २ प्र ३४; ३.

a) = (स। b) ० घकम् इति वाच्यः निमा. पा. १। c) वैरं यद.। d) सर्वेषां इति निमा., अथ्या संति.।
 e) = चकार-बीजापर-। f) अ ९, १७, ४०। g) ० लुजः इति खान.। h) ० लुजः इति खान.। i) म्पु. १ = १ घन-।
 j) = नाउ.। k) १११ यद.। लु. गृ. २६८। c)। l) तैमा १०, ६३, १। m) ० मम् इति निमा. १ यनि. घोषः इ. (वृ. अथ्या.)।
 n) मा १२, ४। o) मा ३४, ५। p) तैमा १०, १३, १। q) 'सामानि' इति शांका ५, ६। r) तैमा ३, १२, ८, १।

साम-ऋग्-अजुर्-आशक- -कम्
सी २३.

साम-ग^१- -गाः सार २९२: १९.

साम-गान- -नम् सार २८२: ५;

-नेव सार २८६: १६.

साम-तव(>) छां ४, १७, ६.

साम-त्व- -त्वन् वृ १, ३, २२.

साम-मध्य-म^१- -गम् वृ १, १६.

साम-मय- -यम् कौ २, ६; वृजा

६, १२; वृ ५, ८.

साम-वेद^१- -दः मुं १, १, ५; छां

१, ३, ७; ३, ३, १; ७, १, ४;

वृ १, ५, ५; २, ४, १०; ४, १,

२, ५, ११; मैत्रि ६, ३२; अ १;

वृ २, २; वृ ३, ५; काता १६;

मुवा २; अवि ६; ५या ११; महा

१, १; ऋ २९; जावा २५; आच

७; च २०: ७; १२ ३१: ९;

नाप ५, ४०; विशि ३८२: १२;

गार ४०६: ५; गी १०, २२;

-दम् छा ३, ३, २; १५, ७; ७, १,

२; २, १; ७, १; २२ ३२: १५;

३६: २२; वे २२ ३४: १८;

-देन सूता १, १५.

सामवेद-ना(त>)वा- -तानाम्

मु १, २, ४.

सामवेद-प्रपठन- -नम् मध ८: १

सामवेद-शिरस- -रा ना ३.

सामवेद-सहित(>)ता- -ता

गार ४०६: २३.

सामवेदा(द-आ)ख्य- -ख्यम्

पं ६.

साम-शिरस- -राः कौ १, ७.

साम-श्रवस- -वा. ०^१ वृ ३, १, २.

साम-हंस-कूजित- -तैः त्रिभि ७, २१.

साम(म-अ)ङ्- -ङ्गम् वृ १, १६^१.

सामन्त^१- -न्तः महा ५, ७९.

सा(स^१-अ)म(र>)ग^१- -रा रा ५, ४,

६०.

सामर्थ्य- -समर्थं द.

सामान्य- -समान- द.

सामासिक- -समम् द.

सामोप- -समीप- द.

सा(स^१-अ)मृ(त>)ता- -ताम् त्रिता

१, ७८.

सा(स^१-आ)मो(द>)दा- -दाम् त्रिता

१, ७७.

सांपराय- -संपरे द.

सांप्रत- -संप्रति द.

सा(स^१-अ)म्या(>)म्य- -म्यः शु १, ७;

म १, ११^१; व ४६३: ९; -म्यम्

शु १, १; म २, १; ३; विशि

३८०: ३.

साम्य-शिव- -श्या द ९.

सा(स^१-अ)म्यर- -राः मि १०; १ अव ६६.

साम्य- -सम- द.

साम्राज्य- -सम्/राज् द.

साय^१- -यम् छां ४, ६-८, १; ना ५;

मना २, ७९; १५^१; ८०^१; १ योत

४३; ६७; त्रिवा २, १०१; शां १,

७, २; अच् १६; दे २२; त्रिता

४, ३५; रुजा ३, १; ग १६; मवा

१२; इ १०: १६; सार २२४:

८; मिशि ३८३: १३; गार ४०६:

२१; कथु २, ३.

सायम्

सायं-संध्या-वन्दन- -नम् नाप

४, ३८.

सायं-होम- -सः क ११; कथु २, ३.

सायं-श्राव(>)ना ५; दे २२;

रजा ३, १; ग १६; मवा १२;

इ १०: १७; गोचं ६७: १८; गार

४०८: १५.

साया(य-अ)हन्- -हनि छां २५: ६.

१ सायक^१- -क व ४५९: २१५^१;

४६१: १५^१; -कम् रा २, १३.

२ सायक^१-

सायकायन^१- -नः, नाप ६४, ६, २.

सायुज्य- सयुज्- द.

सा(स^१-आ)युध- -ध्याः म २, २८;

व ५, २, ४.

सा(ग^१-आ)युध-चतुष्टय- -यम्

त्रिता २, ६३.

सार^१- -रः अक्ष ४, ७०^१; -रम् अक्ष

२, १७; कव २३; मु १, १, ४४;

शि १, ७; -राणाम् शि ६, २६६;

-रात् शि १, ८; यु ४.

सार-व(म>)मा- -माः यु ४.

सार-तर- -तर अच् ५.

सार-दिदक्षा- -क्षया नाप ३, १४;

मव १, १.

सार-भूत- -तम् पा ८, १.

सारा(र-आ)दान- -नम् सां ४, १३.

सारङ्ग^१-

सारङ्ग-यत् नाप ७.

सार(ण>)णी^१- -णी मैत्रि ७, ११.

सारथि^१- -थिम् व १, ३, ३; अना २;

पे ४, १; भव २, १०; -थेः क

१, ३, ५, ६.

सारस^१- -साः सार २६४: १०.

सारस्वत- -सरस्व- द.

साराजि^१-

साराजि-मन्त^१- -न्तम् पा ७, २^१.

सारूप्य- -स रूप- द.

सा(स^१-अ)गोल- -गः वृ ६, ४, २३.

a) उप. <√गै। b) उप. <√गम्। c) सप्लुति निर्देशः (पा ८, २, ८४)। d) व्यु. = राजन्-।
e) = ६स। f) = उकार-बीजाक्षर-। g) °रः इति अच्चा। h) वैपरी यद्। i) वा. क्रिवि. द.। j) छ. गृ.
पृ ५६४। k) तैआ १०, ६४, १^१। l) छ १०, ८३, १। m) छ १०, ८४, ६। n) व्यु. = गोश्रवर्तक-
-श्रुषिकिरेव-। o) वया. वैपरी यद्। p) व्यु. = वृग-। q) व्यु.। r) व्यु. = जलचरविशेष-। s) व्यु.
= साम्राज्य- (तु. पाटी.)। t) उप. = मनुप. द.।

सा(स^०-अ)र्धका(क-अ)र्ण-द्वय-
-यम् रार ५,३.
सा(स^०-अ)र्ध-चतसृ- -सः गर्भ^{५०}.
सा(स^०-अ)र्ध-त्रि-कोटि- -टीः कलि
३.
सार्धत्रिकोटि-तीर्थ- -थेषु महा ३,
२;३.
सार्धम् छां ८,९,२; गौ ४, ५; नद
३८; रापृ ४, १६; २७; २८; योशि
१, ८६; रुह २^५; म १, ३; इ
११ : ८; सार २६९ : १२;
२७० : २; शि २, १३; ४, २७;
२८; ५३; ६, ६९.
सा(स^०-अ)र्धा(र्ध-अ)धिक- -कम्
शि ४, ४७.
सार्ध- /सृपृ द.
सार्ध- , सार्धकामिक-, सार्धकाल-,
सार्धकालिक-, सार्धभौम-, सार्ध-
वर्ण-, १-२सार्धवर्णिक-, सार्धा-
ङ्गिक-, सार्धांगिक-, सार्धाङ्ग-
सर्व- द.
सा(स^०-अ)र्ध-
सार्ध-सा- -ताम् छां २, २०, २;
मना २, १५^{१०}; वृपृ १, १४; कथु
२, १
१सार्ध^१ - -लाम् रापृ ४, २२.
२सार्ध(>)ला^१-
साला-वृक^१ - -केभ्यः कौ ३, १; म
१, ९.
सा(स^०-अ)र्धलम्ब- -भ्यःत्रिवि ८, ८^{११};
-भ्यम् नि २.
सालम्ब-निरालम्ब-वोग- -गौ
त्रिवि ८, ५.
सालम्ब-योग- -गः त्रिवि ८, ८

सा(स^०-अ)र्धलम्बन- -नम् योपू ३,
२०.
सालोक्य- सलोक- द.
सा(स^०-अ)र्धधान- -नःअश^१, १०३;
-नाः भव १, ५५^१; ५८; -नेन
त्रिवि १, २; ५; ५, ४; ८, ५; पै २,
३; पप ४१८ : २२; वरा २, ८३
सावधान-ता- -तथा अता ११.
सावधान-भा(व>)वा- -वा अक्ष^२
सावधान-मनस- -नसः सौ १, १^१;
-नाः वरा १, २.
सा(स^०-अ)र्धयय- -०व लां २१६;
१२; -वः त्रिवि २, १; ४; -वम्
मैत्रि १, ४, १४^१; त्रिवि २, १;
साका १०.
सावयव-नव- -स्वात् त्रिवि २, ४.
सा(स^०-अ)र्धघरण- -णम् त्रिवि ३, ५;
६, १; ११; -णस्य त्रिवि ३, ७;
-णानि त्रिवि ६, ६; ९; ८, ४.
सावरा^१ - -राम् वृ ६, ४, २३.
सावित्र- /सृ(प्रिणै) द.
सा(स^०-अ)र्धवेश-स्मर- -यु(त>)-
ता- -सा तारा ८३ : २१.
सा(स^०-अ)र्धदान-
साशाना(न-अ)नदान- -ने त्रिवि ४,
९^१.
सा(स^०-अ)र्धशीतिक- -कम् गर्भ ५^{१०}.
सा(स^०-अ)र्धश्रय- -यः पित्र ४, ३; ४;
-यम् पित्र ४, ६.
सा(स^०-अ)र्धपत्र- -यम् रार ३, १;
रापृ ४, ४४; सूता ५, ३, ३वा ८.
सा(स^०-अ)र्धशूलाग्र- -ग्रम् रार
३, १.
सा(स^०-अ)र्धशूलाग्र- -ग्रः १योत

२^५; नाप ८, ८; -ङ्गम् जाद १, ३.
सा(स^०-अ)र्धशूलाग्र- -नम् जाद
१, ४.
सा(स^०-अ)र्धशूलाग्र(>)र्णा- -र्णा
त्रिता १, ६.
सा(स^०-अ)र्धसिक(>)का^१- -काः पा
४, ७.
१सासिष्वसन्तम् पा ७, १; ८.
सा(स^०-अ)र्धसुर- -रः मन्त्रि १२^१.
सा(स^०-अ)र्धहंकार- -रेण गी १८, २४.
साहस- /सह द.
√सि(वधा.)
१सैतु^{१०}- -तुः क १, ३, २; सुं २,
२, ५; छां ८, ४, १; वृ ४, ४, २२;
मैत्रि ७, ७; ते ५, ३५; वरा ५,
४१; -सुम् छां ८, ४, १; २^१;
श्वे ६, १९.
सैतु(तु-उ)ग्मान-संबन्ध-भेद-
व्यपदेश- -शोभ्याःब्रह्म २, ३, १.
२सैतु^१-
सैतव^१ - -वः -वात् वृ ४, ६, २.
सैतव-प्राचीनयोग्य- -न्या-
भ्याम्, नथौ वृ २, ६, २.
सिंह^१ - -०ह वृपृ २, ८^१; -हः छां ६,
९, ३; १०, २; कौ १, २; वृपृ २,
१३; ४, १३; ते ६, ९५; १योत
६०; ११०; योचू ११८; त्रिवि
७, ३९^१; महा ५, ८७; शा १,
७, ६, वृपृ ८४ : २०; -हम् वृपृ
४, ५; ६, ५; ७, २; १वा ४३;
१योत २९; -हस्य भव १, ४३;
-हे सुवा १३; ते ६, ८६; -हेन
वृपृ ४, ५; ते ६, ९२.
सिंह-नाद- -दम् गी १, १२.

a) = ६म । b) अर्थ^० इति आन. । c) द्यु १ अर्थ. = २सह । d) = ५स । e) तेआ १०, १४, १ । f) द्यु १
= ३चविरोप- । g) वैप १ यद । h) तु. गपृ. पृ ३६ । i) °नाः इति अख्या. । j) °वस्वरूपम् इति अख्या. । k) द्यु १
पु. । विप. = वरगसाधन-सहृदत- । l) अ १०, ९०, ४ । m) 'अशीतिसंधिशातम्' इति अख्या. । n) उप. < /आस (तु. पाठो.) । o) पा १ एतदनु गपृ. (पृ १२०) सम्य. 'अस्य- > -सन्तम्' इत्यपि ? । p) 'धुरः
इति अख्या. । q) धा. वन्धने वृतिः । वैप १ यद. । r) धा. अर्थः ? = गोप्रवर्तक-अपि विरोप- । s) यत्रा. वैप १ यद. ।
t) 'दद' इति अ २, ३१, ११; निता. । u) वृति^० इति निता. ।

सिंह-रूपक-कम् प्रिता २,४४.
सिंहा(ह-घा)स्व(व>)वा- -हाम् व
४२७: १५.

सिंहा(ह-घा)तन°- -नम् शां १,३,
६५^१; वरा ५, १६५^१; सि ६,
९१; -ने रार १,७; २,४५.
सिंहासन-स्थ- -स्थ: राष्ट्र ४,
३०.

सिंहि✓/ह

सिंहि-कृत्य वृत् ७,२.

सिंहौ(ह-घो)घ- -घै: महा ४,६४.

सिक्(त>)ता^१०- -ता: धृ १, १, १;
वर्ध ३२५^१.

सैकव^१- -यम् सि ३८२: २२.

✓सिच्, >म्, सेचि, सिञ्चति सुं २,

१,५; ऐ ४,१; छां ४, १५, १^१;

५, १०, ६; सिञ्चन्ते म २, ३०;

सिञ्चतु नाप ४, ३८५^१.

सिक्- -कम् यो १,७१; निह १,५.

सिष्मयान(ं>)ना- -ना सार २६७:

११.

सिञ्च(व>)न्ती- -न्य: सार २२८:

२०.

सिञ्चमान- -ना: सार २६९: १५.

सेचन-

सेचनीय- -यम् त्रिता १,४४^१.

सेचय(त्>)न्ती- -न्य: सार

२२८: १९.

१सित^१-

सितव,ता^१- -तया त्रि १३^१, म २,

२२; -ता मन्त्रि ५; -तेम म २,

३; -तै: सि १,२६.

सित-जल-कण्डोल- -लै: सार

२२८: ३.

सित-र(क)का- -क्ता चू ५.

सिता(त-घ)म्यर- -र: वृजा ३,

२३.

मिता(त-घ)सित- -ता: मैथि
६, १०; -तै: मं २, १०; ३, १; ३;
मैथि २, ७; ३, १; २.

✓सिच्, सिष्पति १योत ८०; प्रिता

२, २१; वा ३२; योशि १, ५३;

अप्या ५६; यो २, ५; वरा २,

७८; ५, ३५; ४५; सु १, १, २, ६;

सृता ४, ११; ६, ५; वृष ८५: ९^१;

व ४१८: २३; सिष्पत: गी १,

११; सिष्पन्ति त्रिवि ५, ७; ८,

१२; योशि १, १५२ भा ४२:

२प्र ३३: १७; सृता १, ३३;

वृष ८५: १०^१; मव १, ४३;

सिष्पेत् गी ३, ७; ९; १योत ५०;

सिष्पेयु: अण्य ७.

सेस्वति गी ४, ३०; सेस्वन्ति

गी ४, ४३.

सिष्पते मयि ४८; यो २, ४३.

सिद्ध,द्वा- -द्वा: मंत्रे ३, २; वृत् ९,

२; १०; ११; ते १, ३९; ३, २०;

५, ६१; म्या ७२; योषू ४२;

अता ५; महा ४, ११६; योशि

१, ८०; १४२; अप्या ६४; वृष

८५: १७; सार २२७: १८;

२५७: १२; शुषो ४२१: ७; गी

१६, १४; -द्धम् वृत् ९, ९^१; १या

४३^१; १योत २९; त्रिवि २, ८;

३, २; अता १०; योशि १, १५९;

१यान्या २, ७०; सार २५२: ८;

सि ६, ३२; गा ४०५: १; सांवा

६; १४; १८; १९; -द्धस्य योशि

१, ५०; सांमू १, १४७; -द्वा राधा

२, ११; आथ ३९८: १६; सांमू

३, ५७; -द्धा: ते १, २६; महा ३,

५०; योशि १, १५५; दे १०; म

२, २६; गोठ २४; वरा ५, ४३;

सार २४३: ६; २४८: २३; २५९.

११; -द्वा नाम गार २, ५; जी ७,
३; १०, २६; -द्वा नि सिद्ध, २२९;
-द्वा म् गी ४२१: २; -द्धे ते ६,
७९; १योत ५०; सां १, ७, १४;
भव २, २१; -द्धेन योशि १, ५०;
-द्धै: १योत ११७.

सिद्ध-काव्य(ली-घ)पिकासिद्ध-
-नी वामे ४.

सिद्ध-श्रेय- -त्रे वपू १, ४.

सिद्ध-गन्धर्व-यक्ष-रक्ष:-

विनाच- -प्या: नापू ५, २६.

सिद्ध-घामुण्डे(एटा-ई)धरी^१-

-०रि व ४५३: १६.

सिद्ध-चारण-पद्मग- -गा: वृत्

७१: ३.

सिद्ध-न्य-

सिद्धत्वा(त्व-घ)सिद्धत्व-

-न्याम्याम् वृत् ९, ४.

सिद्ध-दूर्वा- -नम् शां १, ७,

५२; योषू ३, ३३.

सिद्ध-धर्म- -मैत्रे सार २२७:

१८.

सिद्ध-नमस्कृ(त>)ता- -ता

प्या ८३.

सिद्ध-माजन- -नम् प्या ७३.

सिद्ध-मयु^१- -तु: रार ४, ९.

सिद्ध-मन्त्र- -मन्त्र: ग १८.

सिद्ध-मन्त्र-यन्त्र-तन्त्र-

अम(र>)री- -०रि व ४३२:

१३.

सिद्ध-रूप-चोदु-

सिद्धरूपचोदु- -नवात्

सांमू १, ९८.

सिद्ध-लक्ष्मी^१- -०दिस व ४३६:

१५; ४६६: १०; -क्ष्मी: नापू

२, ६; व ४२७: ५; -क्ष्मै व

४५५: २१.

a) =योगसन- वा राजपीठिका- वा । b) शुद्धि =वास्तुका- । c) तैश्चा १, २७, ५ । d) वा ५, २, १०४ ।
e) ०न्ति इति निसा. । f) तैश्चा २, १८, १ । g) सेव^१ इति अन्वा. । h) =वर्गविशेष- । वैपश् यद्र. । i) =वर्गविशेषवत्- ।
j) =सरस्वती- (तु. उत्र.) । k) 'छिद्रम्' इति निपा. । l) उप. =१मत्तु- ।

सिद्ध-वन्दि(त>)ता- ता ५
 ४५; योच् ८.
 सिद्ध-विद्या- -द्यानाम् तारा
 ८३: ९; ८४: ५
 सिद्ध-संघ- -घा: गी ११, ३६.
 सिद्ध-साधन- -नम् सांस् ५, ६०.
 सिद्ध-सेवित- -तम् शां ३, ३.
 सिद्धा(द-अ)न्त- -न्त: अक्ष ५,
 ११२; सिशि ३८०: २; ३८३:
 १०; -न्तम् सार २३५: ११; सांका
 ७१: -न्तै: सार २३१: १३.
 सिद्धान्त-शिक्षा^१- -क्षाम्
 सिशि ३८३: १२.
 सिद्धान्त-श्रवण- -णम्
 १योत २७; शां १, २; जाद २,
 १; वरा ५, १४.
 सिद्धान्त-स्थान- -नम् सार
 २३४: ९.
 सिद्धान्त-हानि- -नि: सांस्
 १, २१.
 सिद्धा(द्व-अ)घ्न- -घ्नम् राधा ४,
 ७^७.
 सिद्धाक्ष-भोगा(ग-अ)वृष-
 पापस-पकाक्ष-भाग- -गा:
 सार २२३: ९.
 सिद्धा(द-आ)भ- -भम् २७४:
 १८.
 सिद्धा(द-अ)रण्य- -ण्ये वपु
 १, ४.
 सिद्धा(द-अ)र्थ-
 सिद्धार्थे घर् सं ८.
 १सिद्धा(द-अ)सन^{१०}- -नम् ते
 १, २६; निमा २, ५-७^{११}; योच्
 ३; शां १, ३, ७^{१२}; -ने नाद ३१६.
 सिद्धामन(स्थ>)स्था-
 -स्थाम् प्रिता २, २७.
 २निदा(द-का)मन^{१३}- -न: पिय

१, १; ४, १; १०.
 सिद्धे(द्व-ई)धर^१- -र: म ४८: ८.
 सिद्धो(द्व-उ)पाय- -यम् योशि
 १, ६१.
 सिद्धौ(द्व-ओ)दन- -नम् वपु
 २, ५.
 सिद्धि- -द्धय: रार २, ३५; योशि
 १, १४९; १५१-१५४; १५७;
 योरा १९; सार २२३: २१;
 २४२: ६; २६७: ५; सांका ५१;
 योस् ३, १८; ४, १; -द्धये ते १,
 २६; योशि १, १२; अक्ष ५, १६;
 १अव ९; गी ७, ३; १८, १३;
 -द्धि: गौ ४, १८^१; यौ ३, ३;
 १योत ६४; योच् ४; यो २, ११;
 १२; २५; गोपू १९^१; लि ३१०:
 १२; ३११: ४; काम ७; कालि
 ४०३: २०; रथा १८; वपु २,
 ४; सांस् ३, ४०; ४४; ४, १९; ५,
 २४; साका १४; ४७; वस् २,
 २, २७; गी ४, १२; -द्धिभि:
 योशि १, १५९; १६०; गु ८४;
 -द्धिम् ते १, २६; नाप ३, ३६;
 ५३; योच् ११९; त्रिवि ८, ६^१;
 महा ५, ८१; शां १, ७, ७; योशि
 २, २१; ५, ४६; अक्ष ४, ७; यो
 २, २७; भ २, २६; नि १२, गोउ
 २४; ह ११; मर १, २; सु २,
 ३, १२; नि ७, ७३; व ४३०:
 १२; भव १, ५२; गी ३, ४; ४,
 १२; १२, १०; १४, १; १६, २३;
 १८, ४५; ४६; ५०; -द्धिनाम्
 योशि ३, १; योरा १३; -द्धे: ते ३,
 ४६; सांका ५१; -द्धौ गौ ४, २०;
 योशि ५, ६२; गी ४, २२; -द्धया
 सु २, १, १; -द्धये महा ५, ८३.
 सिद्धि-कर- -र: अ ३; अक्ष १६.

सिद्धि-कारि(रु>)णी- -णि
 व ४३६: २०.
 सिद्धि-चामुण्डा^१- -ण्डे व
 ४५८: १२.
 सिद्धि-जाल- -लम् योशि १,
 १५८; -क्षानि अक्ष ५, ८; वरा
 ३, २६.
 सिद्धि-द, दा- -दम् योशि १,
 १६८; ५, ४; अक्ष ५, १६; रुजा
 २, १५; सिद्धि, १९२; -दा काम ८.
 सिद्धि-द्वार- -राणि योशि २,
 १८.
 सिद्धि-बुद्धयु(दि-उ)भया-
 (य-आ)क्षिष्ट- -ष्टम् वपु २, २.
 सिद्धि-भाजू- -भाक् महा ५,
 ८८; यो २, २६.
 सिद्धि-भाजन- -नम् १योत
 १२६.
 सिद्धि-मत्- -मत् शि ७, ८४.
 सिद्धिमत्-ता^{१६}- -ता त्रिद^{१७}.
 सिद्धि-मार्ग- -गैण योशि १, ४.
 सिद्धिमार्ग-प्रकाशक- -क:
 वरा ५, ४०.
 सिद्धि-वाच्छा- -च्छायाम् वरा
 ३, ३०.
 सिद्धि-वृद्धि-कर- -रा: शि ७,
 १०१.
 सिद्धि-साधन- -नै: अक्ष ४, ५.
 सिद्धौ(द्वि-ई)धर- -र: सुमु १९;
 काम १०; चक १३; घो ११;
 २१.
 सिद्धय(दि-अ)र्थ- -र्थम् नाप ३,
 ५३.
 सिद्धयधिन्- -र्था नाप ६, ३.
 सिद्धय(दि-अ)सिद्धि- -द्धयो:
 गी २, ४८; १८, २६.
 सिनीवाली^१- -लि वृ ६, ४, २१^१.

a) = तदास्योपनिषद्विशेष- । b) सिद्धा^१ इति पा. १ मनि. शोष: द. । c) = ध्यामनविशेष- । d) °नस्थितः इति ऋष्या. । e) वस. = श्रुतिविशेष- । f) 'सुपम्' इति मान. । g) = आवरणदेवताविशेष- । h) शुद्धम् इति लाम्नि. । i) वेप १ यद. । j) श् १०, १८४, २ ।

सिन्दूर^{११०}-

सिन्दूर-वर्ण- -जः त्रिधा २, १३८;
हे ४; -णम् इति ३१० : १४.

सिन्दूर-मात-संकाश- -शम् योच्
६१.

इसिन्धु^{१११}- -यवः सुं२, १, १; ४१, १,
१, ६, १, ६९; मना २, १२, १९;
२, ३९९; सार२२४: १०; चिं३१,
११; ९९; -धुः तै६, ८३; आबो
१५; -न्धुम् मना २, १९; त्रिधा
१, ७९; व ४३० : ७९; ४६१ :
७९; १२९.

सिन्धु-राज- -जः मैत्रि ६, १६.

२सिन्धु^{११२}-

१सिन्धव- -जः वृ ६, १, १३.

सि(र>)रा^{११३}-

सिरा-बद्ध- -द्धम् यो २, ३१.

√सिक्, मीष्यत् पा ७, ४.

सीवान>मी^{११४}- -नीम् त्रिधा २,
४४; जाद ३, ८; -न्याः शां १,
३, ८; जाद ३, ७.

सीवनी-पार्थ- -थम् त्रिधा २,
४६.

सीवि(र>)नी^{११५}- -नी योशि ५,
२७; -नीम् शां १, ३, ९; जाद ६,
३८.

सीविन्धु(नी-उ)भय-पार्थ-
-थयोः त्रिधा २, ४५.

स्पृत-

स्पृत-पुष्प-सुवर्ण-जदित-
मणि-सुक्का-स्रविवा(त-अ)-
न्दर-ज्योत्स्ना-भावित्र- -ताः
मार २६४ : २३.

सिखुक्षत्-सिखुक्षमाण- / छज् द्र.

सीत्

सीत्-कार-

सीत्कार-पूर्वक- -कम् शां १, ७,
१४.

सीता^{११६}- -तया राष्ट्र ४, ६; -ता सी १;
२; ३; ६; ८; रार २, १५; १६;
राउ २, ४; ता २, ४; ३, ७; ८;
गु १, १, ३४; -ताम् रार १, ७;
२, २४; १४; राष्ट्र ४, १८; २६.

सीता-पति- -तये रार २, ५९.

सीता-पद- -दम् रार २, ८६.

सीता-पाणि-परिमह- -हः रार २,
४१.

सीता-भरत-सीमित्रि-शायुष्म-
(प्र-आ)घ- -घैः मु १, १, १.

सीता-शम- -मी राष्ट्र ३, १.

सीता-लक्ष्मण-संयुत- -तम् रार
२, ४.

सीता(ता-अ)लंकृत-धामा(म-अ)-
ङ्ग- -ङ्गम् रार २, ४६.

सीता-बल्लभ- -भाय त्रिवि ७, ४१;
रार २, ६८; व ४६३ : ११.

सीता-विश्वस- -स तां २१४ : ८.

सीता-स्तव- -वम् रार १, ९.

सीम्^{११७} वा ७; १०.

सीमन्^{११८}- -मा अदि ४१; -मानम् ऐ
३, १२.

ई^{११९}सीम-तत्त्व(>) मना १, १०;
२संन्या १६ : ६; २शिल् ३२.

सीम(अ-अ)न्त- -न्तः सार २६४:
२१.

सीमन्त-दृष्ट- -ष्टः गु ९.
सीमन्तित्- -न्तित्ने सार २५१:
१४.

सीमा(म-अ)न्त- -न्तः महा ६, २६.

सीस^{१२०}- -सम्, -सेन छं ४, १७, ७९.
सु^{१२१} के २, १; ३; आर्वे ९ : १७; सार
२४४: २३; २५३: २१; २६९:
४; ई^{१२२}व ४४०: ११; ४४५: १७;
४५० : १७; ४५४ : १.

√सु(अभिपये), ई^{१२३}सुनुत व ४४० : १;
४४५ : ७; ४५० : १०; ४५३:
१५; ई^{१२४}सुनयाम मना २, १;
त्रिधा १, ६; २, १; ३; ४; ७; १३;
१५; २२; २६; २८; व ४३०: ६;
४६१ : ९.

१सव-
सव-वच प्रसु ३, ३, ३.

१सवन- -न्तम् छं २, २४, १; १०;
३, १६, २; ३; ४; वत्ता १५;
शौ ५२ : २२; -नस्य छं २,
२४, ७; शौ ५२ : १३; ५३: १;
-नात् मै ५, ७; मैत्रि ६, ७; -नावि
मना २, ८०; -ने पा ७, १.

सवन-ग्रथ- -ग्रथम् वि २३.

१सुत- -तः वृ २, १, ३; -तम् छं
५, १३, १.

सुवत्- -न्वते दे २९.

सुवान- -नः मना १, १५९.

सुयमान- -नाय मैत्रि ६, ७.

सुयमान-व- -त्वात् मै ५, ७.

√सु(प्रसवे), सोष्पति, अतोद छं ३,
१७, ५.

२सुव, ता- -तः मैत्रे २, १३; -तम्
वर् १, ५; -ता जाद ४, ५१; छ
५; -तात् छं ३; -ते शु १, ५.

सुत-दुहितृ-कलयो(प्र-उ)प-
द्रव- -वैः व ४५५ : १२.

a) व्यु. < √स्पन्द इति अभा. प्रथ । b) वषा. वैपश् यद. । इह = नदी-, समुद्र- । c) अ १, ९०, ९ ।
d) तैव्या १०, १०, १ । e) अ १, ९९, १; ५, ४, ९ । f) अ १, ९९, १ । g) अ ५, ४, ९ । h) व्यु. ! = देवविशेष- ।
i) वैपश् यद. । j) °बन्धम् इति अश्या. । k) °वि° इति अश्या. । l) °विनीं गु° इति अश्या. संति. । m) = सीवनी- ।
n) °घन्तु° इति निसा. । o) व्यु. ! = श्रीरामजनी-, देवीविशेष-, तदाक्योपनिषद्विशेष- । वैपश् अर्थान्तरे द. ।
p) °ता इति अश्या. । q) अय्य. वैपश् यद. । r) मा १३, ३ । s) पररूपं द. (पावा ६, १, ९४) । t) जैउ ३, ४, ३, ३ ।
u) अ १, ३४, ६ । v) अ १०, १४, १३ । w) तैव्या १०, ६४, १ । x) अ १०, १२५, २ । y) अ ९, १७, ४० ।

सुता(त-आ)दि- दौ महा ५,
१६७.
सोष्य(त >)न्ती- न्तीम् वृ ६,४,
२३.
सु-कर-रम् का ४; नार ३; -रेण का
३; नार २.
सु-कल्पित-रम् शि ६,२१२.
सु-कान्त-न्तम् पा १,९.
सु-काम(>)मा- मा सार २६८:
२१.
सु-कुट्टि(>)मा- मा शि ४,१३.
सु-कुमार-
सुकुमार-तर-रम् सांसा ६१.
सु-कृत,ता-तः सुं १, २,६; -न्तम् तै
२,७,१^१; ऐ २,३^१; छां ८,४,१;
वृ ६,४,३^१; ६; कौ १,४; नाप
३,५१; स्व ६१:७; पा १,३; ३,
६; शि ६,२३; २२५; २३३; ७,
११३; भव २,६५; गी ५,१५;
-तस्य क १,३,१; सुं १,२,१; शा
३०; नाप ४,१२५^१; गी १४,१६;
-साम् शि ६, २३८; -ताय पा
६,४; -नेन^१ सुं १,२,१०.
सुकृत-दुकृत-ते कौ १,४^१; ब्रह्
३, १, ११; गी २, ५०; -वानि
पिं १,१४; १५.
सुकृतिन्-तिन. गी ७, १६; -ती
त्रि १२१^१; कालि ४०२:७; सुमु
१०.
सु-फेयूर-
सुफेयूर(र-अ)नियत-वाहु-हुम्
गोत्र ४८^१.
सु-फेयूर^१-सा प्र १,१; ६,१.
सु-फोमल,सा-सा मार २६३:२१;
-खानि सार २५५: १७; -सै:
मार २२२: २०; २३३: १२;

२५४: १; २७२: ११.
सु-कुतु^१-कु^१तुम् व ४३९: १५;
४४४: २०; ४५०:३; ४५३:
१३.
सु-श्रान्त-न्तः महा ५,८२.
सु-श्रेय-श्रेयु शि ६,४१.
सुख^१-खम् क १,१,११; २,२,१२;
१४; प्र ४,१; ६; छां ७,२२,१^१;
२३,१^१; खे ६,१२; गी ३,४५;
४७; ४८,८२; मै ४,४,४:१; मैत्रि
४,४; ६,२०; २४; ३०; ३४^१; मैत्रे
१,४,६; पर्व २; नि ८,३१:३२;
ते १,१४^१; २,७; ४,२७; ३१^१;
५, ४४; ६,५; ३५; ४५; ४८;
५४; ६२; ९५^१; नाद ५३; १योत
१०२; नाप ३,२७^१; ४१^१; ८६;
रापू ४,१६; पै ४,९; महा २,
४९; ५६; ४,३१; ५,४६; ६,२६;
योशि १,९९; २,२१; ३,१५; ५,
३६; अक्ष २,२२; ५,४४; ४५;
११७; अक्षि २२; १अव ३२^१;
त्रिना २,५१; कर् २१; यो १,
३८; २,४५; गर ६; जाद ३,१२;
६,२६; १०,१३; गोपू २०^१; वरा
२,७^१; २१; ५७; ३,४; ५,४७;
योरा २१^१; राधा ३, ८; सार
२२५: १८; २२८:१३; २२९:
३:१५; २३४: १४; २३८:१४:
२३९:१०; ११; १६; १७,२४०:
२; ४,५; ८; २५२: २३; २६८:
२३; २६९ ३; २१; २७१:२०;
२८३: १; २; २८४: १९; २२२;
२८५; ६,२३; २९१: २१; शि
७,११८; १३^१; तु ४४; व
४३४:५; भर् १,१०^१; २५; २७;
३०; ३,३१; ३२; पिं १,१५;

५,३; गी २,६६; ४,४०; ५,३;
१३; २१^१; ६,२१; २७; २८; ३२;
१०,४; १३,६; १६, २३; १८,
३६-३९; -खस्य मव १,१०; गी
१४,२७; -खात् ते ६,४५; शां
१,७,९; महा ५,४६; सांस् ६,
६; -खानाम् महा ५,८५; ६,
२४; -खानि सार २५०: १६;
२८७:१४; शि ७,१११; गी १,
३२; ३३; -खाय महा ५,८६;
१८१; अक्ष ४,१५; सि ६,३७;
-खे पर्व ४; ते १,५१; ३,२५;
यो १,२३; वरा ४,२२; सार
२५६: ११; गी १४,९; -खेन
ते १,२५; त्रिना २,१६०; तुअ
१७; हे ४; सुमु १९; गी ६,२८;
-खेयु गी २,५६; -खि: १योत ४;
योशि १,१; अक्ष ५,७.
सौख्य-ख्यम् ते ६,९१^१;
योशि १,१३६; वि १९; शि ७,
११८; व ४६५: १३.
सौख्य-तम-मे मैत्रे १,४,
१४.
सुख-कर-रः सार २८२: १.
सुख-केलि-कला(ला-अ)नुभाव-
-वेन मार २३८: ३.
सुख-कोट्या(टि-आ)नन्द-न्दम्
सार २५४: १८.
सुख-चैतन्य-स्वरूप-पः सार्
१,३५.
सुख-ता-ता कठ २३.
सुख-दा,दा-दम् योशि १,२; अक्ष
४,४५; -दा सार २३८:५५^१;
-दे यो १,२३.
सुख-दायक-काय सार २६१:
११.

a) श्र १०,७१,९ । b) तु. गपू. ५५४। c) °रुणे इति निशा, अघ्या? यनि. शोधः द्र. (तु. ताग्रि.) ।
d) °ं बां इति अघ्या? यनि. शोधः द्र. (तु. भा.) । e) वै ११ यद. । f) श्र १,१२,१ । g) कचित् वा. द्विवि. द. ।
h) °रुदुग्° इति दान. । i) °मे इति अघ्या. । j) °ने इति अघ्या. मेटि. । k) °रुदुग्° इति अघ्या. ।
l) 'गिदिः' इति भाव. । m) तु. गपू. ५२७। f । n) =मस्तीविशेष- ।

सुख-दायि(म्>)नी- नीम् सार
२३२: १२; -यः सार २६४:
१८.

सुख-दुःख- -खम् कौ ३, ७^१५;
-खयोः कौ ३, ८; महा ५, १६५;
-यानाम् भव २, ८; मी १३, २०:
-राम्याम् महा ४, १३१; कुं ११:
क ४; क ३, ४; -खे कौ १, ७;
२, १५^१; ३, ५; ६; ८; गी २, ३८;
-खेषु महा २, ४३; ६, ४७; -खे:
१यांत ११; योशि १, ९.
सुखदुःख-दशा- -शाम् महा
६, ५३.

सुखदुःख-दशा-धीर- -रम्
भव ४, १२.

सुखदुःख-दुड्या(दि-आ)श्रय-
-यः समा १, १८^१.

सुखदुःख-भाजू- -माक् मैत्रि
६, २१.

सुखदुःख-भोकृ- -फा कं १, १३.

सुखदुःख-रम-स्थित- -ते महा
५, ३७.

सुखदुःख-सं(ज्ञा>)ज- -ज्ञैः गी
१, ५, ५.

सुखदुःख-हेतु- -तवः ससा १,
१९; -तोः श्रे १, २; नाप ९, १.

सुखदुःखा(ख-अ)तीत- -तः
नाप ९, २०.

सुखदुःखा(ख-आ)दिक- -कम्
योशि १, ३८.

सुखदुःखा(ख-आ)दि-मोह-
-हेषु योशि १, २२.

सुखदुःखा(ख-आ)लया(य-अ)-
मेध्व- -पयम् मैत्रे २, ५.

सुखदुःखिन्- -खी सां ४, ५.
सुख-दुःख-पुण्या(पय-अ)पुण्य-
विप(य>)या- -यागाम् योस्
१, ३३.

सुख-दुःख-मोह-
सुखदुःखमोह-सं(ज्ञा>)ज-
-कम् मैत्रि ६, १०.

सुख-पारण- -गम् शां १, ३, १२.
सुख-निद्रा- -द्रा महा ४, २९.

सुख-बुद्धि- -द्धिः राधा १, १८; त्रिवि
५, ४.

सुख-भावना- -ना महा ३, ३०.
सुख-भोग- -याः सार २६४: १६.

सुखभोग-रस-क्रीडा- -डाः
सार २८२: १४.

सुख-भ्रम- -भः पित्र ५, ५.
सुख-मण्डल- -लम् योशि ६, ७४;
यो ३, ९; -ले या ३, १२.

सुख-मात्रा- -त्राम् पित्र ५, ३;
-त्रायाम् अथा २५.

सुख-रूप- -पः जाद ५, १३; -पम्
कै १, १३.

सुखरूप-रव- -रवम् वरा ३, १०.
सुखरूप-रति- -रतिः सार
२५१: ३.

सुखरूपिन्- -पिणे सार २७७:
१७.

सुख-लाम- -भः योत् २, ४२.
सुखलाभा(भ-अ)भाव- -वात्
सां ६, ९.

सुख-वत्- -वान् ते ३, ३८.
सुख-विनाशन- -नम् ते १, २५

सुख-विशिष्टा(ष्ट-अ)भिधान-
-नात् वत् १, २, १५.

सुख-शुद्धार-मति- -तिः श्या
९३, ८.

सुख-श्र(ग>)मा^१- -मा सार २८६:
१०.

सुख-संयोग्यता- -ताम् सार २५४:
१९

सुख-संबलि(त>)ता^१- -ता सार
२३४: ५.

सुख-संबन्धि- -न्धिः सां ५, २७
सुख-संवेचित- -तम् योशि ५, २६.
सुख-सङ्ग- -ङ्गेन गी १४, ६.

सुख-संतति-युत- -तम् सार २५३:
१९.

सुख-समाविष्ट-मगस- -नाः सार
२८५: २२.

सुख-संपत्ति- -त्तिः सार २२७:
१३; २५३: २०.

सुखसंपत्ति-सुखा(ख-अ)र्थ-
-र्थम् सार २६३: १२;

सुख-संप्रति- -तम् सार २३४: ३.
सुख-संभोग-स्थान- -नम् सार
२५९: १८.

सुख-संभोग्य- -ग्याः सार २६७: ८.
सुख-संभोग्य- -दुग्धरस-पृतरस-
दधिरस-नधवीतरसा(स-आ)-
घ- -घान् सार २७६: २.

सुख-सिन्धु- -न्धोः राधा ३, १७.
सुख-सौष्टव- -वम् सार २५४: १३.

सुख-स्वरूप- -पः वृत् ९, १०.
सुखा(ख-अ)गत-वस्व(स्व-अ)-
-वमव- -वः मै १, १, ४.

सुखा(ख-आ)शमक- -कः ते ३, ३४;
४, ४९.

सुखा(ख-आ)शमन्- -रमानम् नाप
६, ९; वरा २, २९.

सुखा(ख-आ)दि- -दि ते ५, ३८;
-दिभिः गी ३, ५.

सुखादी- -दीम् अठ ९१^१.

सुखादिक- -कम् ते ५, २०.

सुखाव(दि-अ)नुभव- -वः
अथा ४९.

सुखा(ख-अ)नुभाव-
सुखानुभाविन्- -वी योस् २, ७^१.

सुखा(ख-अ)न्युदय-
सुखान्युदयिक- -कम् भव
५, ६.

a) समाहारे द्वयः । b) खे इति अच्च्वा., खं दु^० इति दांशा ५, ७^१ । c) द्वाया श्रे^० इति निरा.^१
यति. शोधः द्र. (तु. अच्च्वा.) । d) तैआ १, २७, १ । e) वृ. गपु. वृ४०२त ।

सुखा(ख-अ)धे- -यम् सार २२३:
 १५; १८; २५४: १७.
 सुखाधिन्- -धीं नाप ३, ४४.
 सुखा(ख-अ)लंकृत-शरीर- -रा:
 सार २७९: ८.
 सुखा(स-आ)सन^{1a}- -नम् त्रिधा
 २, ५२; जाद ३, १२
 सुखासन-वृत्ति- -त्ति: मे १, १, ५.
 सुखासन-समाख्य- -ख्यम्
 जाद ३, २.
 सुखासन-स्थ- -स्थ: कै १, ४;
 शां १, ७, १४.
 सुखा(ख-अ)सन^b- -न: ते ४,
 ४७.
 सुखा(स-आ)स्तीन- -न: ते ३, २४;
 -नम् शि ७, ३१.
 सुखिन्- -खिन: कठ २९; गी १,
 ३७; २, ३३; -स्त्री ते ४, ३३; ध्या
 ७१; ९३, १; नाप ८, १२; ९, २०;
 योक् ९६; ९७; शां १, ७, १८;
 महा ३, ४८; ४, १०५; १२८;
 योशि १, ३३; १२३; २, २१; अक्ष
 १, १८; ४, ६३; ५, ६७; १आ
 ११; कठ २३; जाद ६, १५; या
 २, १४; शि ३, ११; ६, १७; १३२;
 २३१; सां ४, ११; १२; ६, ७;
 गी ५, २३; १६, १४.
 सुखे(ख-इ)तर- -रेपु धे १, १.
 सुखो(ख-उ)पाव- -यम् योशि ५,
 ४६.
 सु-सुर- -रम् पा ६, १०.
 सु-गन्ध^a- -न्ध: १योत ६२; -न्धेन
 १योत ३४; सार २२२: २०;
 २३३: १२.
 सुगन्ध-वृष्ट- -ष्टानि मार २५५:
 १७.
 सुगन्ध-(त>)जा^{1d}- -जा मार
 २६३: १.

सुगन्ध-नृत्व-भेद-(ज्ञ>)जा^{1d}-
 -जा सार २६३: १०.
 सुगन्ध-युत- -ता: सार २५४: ३;
 २८१: २०.
 सुगन्ध-रसि(क>)का^{1d}- -कया
 मार २३७: १६.
 सुगन्ध-व(त>)ती^{1d}-
 सुगन्धवत्या(ती-आ)दि- -द्वय:
 सार २७०: ९; १४.
 सुगन्ध-संबलित, ना- -तम् सार
 २२५: ८; -ता सार २५३: ११;
 -तानि सार २२५: ७; २३३: १६.
 सुगन्धा(घ-अ)ह्य- -ह्या: सार
 २८४: १०; -ह्यानि सार २७१: १
 सुगन्धित- -तेपु सार २६४: ६.
 सु-गन्ध, न्धा^b- -न्धम् सार २८७:
 २; -न्धा सार २८४: १४^{1d};
 -न्धा: सार २२५: ७; २५४: १.
 सुगन्ध-कला- -ला: सार २३७:
 २३.
 सुगन्धकला-व(त>)ती^{1d}-
 -ती सार २३४: ८.
 सुगन्ध-जल- -लै: सार २७१: १८.
 सुगन्ध-पयस- -यसा सार २३३:
 २१.
 सुगन्ध-पारिजात- -ता: सार
 २५३: २३.
 सुगन्धपारिजात-क- -का: सार
 २६२: १२.
 सुगन्ध-पुष्प-सिकता-रचि(त>)
 ता- -ता: सार २६६: १३.
 सुगन्ध-मणि- -णीनाम् मार २६६:
 १५.
 सुगन्धमणि-पुष्करि(त>)णी-
 -ण्य: मार २२२: १४.
 सुगन्धमणि-मय-
 सुगन्धमणिमय-भोगा-
 (ग-अ)न्वित- -तम् सार

२२८: ८.
 सुगन्धमणि-रस-वलि(त>)-
 ता- -ता मार २७१: २३.
 सुगन्ध-मणि-लता- -तानाम् सार
 २६६: ८.
 सुगन्ध-मालया(त्य-अ)म्बरा(र-अ)-
 लंकाराद्य- -द्यै: काम १८.
 सुगन्ध-मुक्ता-लता- -ताभि: सार
 २२६: ५.
 सुगन्ध-रस, सा- -सा सार २३९:
 ५४^{1d}; -सा: सार २३७: १७.
 सुगन्ध-लती(ता-ओ)वधि-
 -धिभि: सार २५८: २०.
 सुगन्ध-शिला- -लायाम् सार
 २८६: १¹; २.
 सुगन्ध-शीत-ज(ल>)ला- -ला
 सार २६४: ३.
 सुगन्ध-शीतल- -ला: सार २५३:
 २३.
 सुगन्ध-सुवर्ण-लता- -ताभि: सार
 २२६: ५.
 सुगन्धा(न्ध-अज्ञ>)ज्ञी^{1d}- -ज्ञी
 सार २६२: २३.
 सु-गन्धक- -कम् ते ६, १७०.
 सु-गन्धि^a- -न्धिम मना २, ५६^{1d};
 त्रिता १, ८४^{1d}; ४, ७; ८४^{1d}; २शिर्स
 २४^{1d}; ४^{1d}; ४३०: १; ४३८: १६;
 ४३९: ३; १३; २३; ४४०: १०;
 २१; ४४१: ८; १९; ४४२: ६;
 १७; ४४३: ४, १५; ४४४: ८;
 १८; ४४५: ६; १६; ४४६: ३;
 १५; ४४७: २; १३; ४४८: १;
 १२; २३; ४४९: १०; १८;
 ४५०: २; १; १६; २३; ४५१:
 १; १६; २३; ४५२: ८; १६; २३;
 ४५३: ५, १२; १८; २३; ४५४:
 ७; १५; २१; ४५५: ४; -न्धियु
 भव २, ६६; -न्धीनि शि ६, ५१.

a) =योगासनविशेष- । b) वस. । c) प्रास. । d) =मस्तीविशेष- । e) सम°, °न्धि° इति अच्चा. संदि. ।

f) पा ५, ४, १३५ । g) श्र ७, ५९, १२ ।

सु-गान- -नम् सार २७०: १५.
 सु-गुप्त- -सम् कधु १, १; -क्षानि नाप ३, १३.
 सु-गूढ->ढा- -दा गु ७७.
 सु-गोप्य- -व्यान् भव ५, १७.
 सु-ग्री(वा->)र्ष- -वः राष्ट्र ४, २४; -धम् सार १, ७; राष्ट्र ४, २४; ३३; ३५.
 सुग्रीव-सख्य-कृष्ण- -०ण लां २१४: १५.
 सु-घोष-
 सुघोष-मणिपुष्पक- -कौ गी १, १६.
 सु-चक्र- -कम् वृष ८४: ७; ८५: २; -क्राय त्रिवि ७, ४२.
 सु-चलुस्- -क्षुषाम् वा २, २३.
 सु-चरित- -तानि तै १, ११, २.
 सु-चिर- -रम्^० योचू ६६.
 सु-जन- -नस्य भव ५, १३.
 सु-जल- -लैः सार २६९: ५.
 सुजल-कलोल- -लाः सार २६४: १.
 सु-जल- -लानि शि ७, १२९.
 सु-जाल- -तम् कै १, १४.
 सु-जीर्ण- -गोः १ संख्या २, ९०; -गोसु १ संख्या २, ९०; -गोसौ २, २.
 सुजीर्ण-मित-भोजन- -नम् योशि ५, ३६.
 सु-शाल- -तः तै ६, ८९.
 सु-शान- -नाय क १, २, ९.
 सु-शेष- -यः १ संख्या २, ३४; -यम् क १, १, २१; २२.
 सुसुत- \sqrt सु(अभियवे) द.
 सुसुत- \sqrt सु(प्रसवे) द.
 सुसुतर-सि मना २, १; व ४६१: ९; ४६५: २१.
 सु-तर-
 सुतराम्^० सार २२३: ५; दे ४५.

सु-तर->रा- -रा अ २१.
 सुतल- -लम् राधा १, ३; गु १९.
 सुतल-लोक-ज्ञान- -नम् शां १, ७, ५२.
 सु-ताम्रो(म-श्रोष्ठ->)ष्टी- -ष्टी सर ३, ४.
 सु-ताक्ष्य- -क्ष्यः ए ४.
 सु-तीक्ष्ण- -क्ष्णम् लु ११; यो २, २९; -क्ष्णे अत्र ४, ९.
 सु-तेजस्- -जाः लां ५, १२, १; १८, २.
 सु-दत्त- -क्षः वृ २, ९५.
 सु-दत्त- -प्रः वृ ६, ४, २५५.
 सु-दर्शन, ना- -०न व ४५९: १०; -नः राधा ४, ४; -नम् वृ ५, २; ८; १०; त्रिवि ७, ३; ६; य २; सु २९३: २; २९४: ११; -नाम् सुधा ९; -नाय त्रिवि ७, १९; ४२; -नेन अव्य ६; वषं ३१२: ७.
 सुदर्शन-चक्र- -कम् राधा १, ११.
 सुदर्शन-दिग्घतेजो(जस्-अ)त्तर- -गत- -तः त्रिवि १, ११.
 सुदर्शन-पाञ्चजय-पद्म-मदा- (दा-अ)सि-शाङ्ग-सुसल-परिधा- (प-आ)घ- -सैः त्रिवि ७, ५०.
 सुदर्शन-पुरुष- -पः त्रिवि १, ११; ७, १०; -पम् त्रिवि ५, १२; ७, १५.
 सुदर्शन-महाचक्र- -क्राय त्रिवि ७, ३६.
 सुदर्शन-माला-मन्त्र- -न्त्रः त्रिवि ७, ३६.
 सुदर्शन-वैकुण्ठ-पुर- -रम् त्रिवि ७, २.
 सुदर्शन-पदक्षर-मन्त्र- -न्त्राः त्रिवि ७, ३०.

सुदर्शना(न-आ)दि- -न्यास- मन्त्र- -न्त्राः त्रिवि ७, २०.
 सुदर्शना(न-आ)दि-पद्मो(त्र-उ)- -दाय- -रः त्रिवि ७, २०.
 सु-दामन्- -मा कृ १६; २४.
 सुदामा(न-आ)दि- -दि राधा २, ३.
 सु-दामन्-
 सौदामि(१म^०)जी- -सौदामि(१म^०)जी-संनि(भ->)- भा- -भाम् व ४२७: ११.
 सु-दाहण- -गम् इ १९: ९; -णे इ १२: २३; १७: २०.
 सु-दीप्त- -सत्त्वं सुं २, १, १.
 सु-दुःख-धी- -धीः अत्र २, १०.
 सु-दुःख-नाश- -घात वरा ३, ५.
 सु-दुराचार- -राः गी ९, १०.
 सु-दुर-दर्श- -दर्शं गी ११, ५२.
 सु-दुर-निरीक्ष- -क्षः भव्य ६.
 सु-दुर-बोध- -धम् योशि ३, २०.
 सु-दुर-लभ- -भः यी ७, १९; -भम् ध्या ८८; योचू ६१; योशि ६, ६२; अशि १.
 सुदुर्लभ-तर- -रम् यो २, १०.
 सु-दुश्-चर- -रम् वां ३, १.
 सु-दुष्-कर- -रम् गी ६, ३४.
 सु-दुर- -रं सुं ३, १, ५; गु ३६.
 सु-दृढ, ढा- -दः महा ५, ८२; -दम् वृजा ५, १०; -दा वृ ९, ६; -यत् महा ४, १२४; १२५.
 सु-युञ्ज-
 सुयुञ्ज-भूरिपुञ्जे(अ-इ)द्रपुञ्ज-कुव- लयाश्-न्योवनाश्-वधयथा- (प-अ)वपति-शातयिन्दु-हरि- अग्ना(अ-अ)म्बरीप-नहुष-राषां- ति-ययाश(ति-अ)नरषयो- (राय-३)क्षसेना(न-आ)दि-

a) = वाचविशेष-। b) या. त्रिवि. द.। c) कस्य.। d) यतः। e) °नित्य भो° इति निता. संति.। f) °विष्णु° इति निता.। g) पा. १ (वृ. त्रि १०, १२७, १२) 'सु-तर->)रा-> -रा', अमि इति कोषः द. (वेग १ यद.)। h) चव्य.। i) विशिष्ट इह रि. (१०, १२७, १२) पाठे.। j) श्र ३, ४, ९। °द° इति निता.। k) श्र ६, १९७, ५९। l) त्रिप. बा नाप. (=नाहविशेष-, चक्रविशेष- प्रष्ट.) वा। m) पा. १ वनि. शोषः द. (वृ. अभा. प्रष्ट.)। n) =विपुर्-।

-द्वयः मै १, ५१; मैत्रि १, ४१^०.
 सु-धन्वन्- -न्वा वृ३, ३, ११^०; ए३.
 सुधा^०- -धया त्रि ७१^०; तुल ७०:
 २; वट ६, २८; -धाम् योशि १,
 ३३; -धायि योशि ६, ३.
 सुधा-चन्द्र-मण्डल- -लम् मं २,
 १, ५.
 सुधा-देवी- -र्यै व ४६३: १४.
 सुधा-मय-
 सुधामयी- -यीम् वो २, २५.
 सुधामय-समुद्र- -द्रेण राधा १,
 १३.
 सुधा^०- -धया १योत ३३
 सुधा-मलित- -सम् शि ४, १२.
 सुधात^०- -तम् धे २, १४.
 सु-धित(त>)त्ता- -ताम् त्रिवि ७,
 ५; सु २९३: १७.
 सु-धी- -धी: वृजा ३, १३; त्रिवि २१;
 १योत ३१; नाप ५, ३५; योशि
 १, ९३; कं १४; पत्र ३, १०; यो
 १, ११; १३: ३०; ३२; कप ४१;
 वृजा १, २३; २, ७; नाप ४, २७;
 राधा ३, १४; व ४६५: १२.
 सु-धुर- -धु: पा ६, १.
 सु-धूष-य(र्ण>)णी- -र्णां सुं १,
 २, ४.
 सु-नाद^०- -देन सार २२३: २१.
 सुनाद-गन्ध- -ग्रेन नाद ४३.
 सु-नाद(द>)दा- -दा: सार २२३:
 २०.
 सु-नारी- -नीम् वत २, ३७.
 सु-निपुण- -ण: वत ३, २५.

सु-निवद्ध- -द्धम् शि ६, १३५.
 सु-निर्मल, ल- -ल: शि ५, ४२; -लम्
 त्रिवि १५; -लाम् धे ३, १२.
 सु-निवृत्त- -ना: गौ ४, ९३.
 सु-निश्चय- -या: सार २३५: २०.
 सु-निश्चल- -ल: जाद ५, ५; वरा ५,
 ३२; -लम् मै ४, ४, ७; मैत्रि ६,
 ३४; त्रिवि २९; शा १, ३, ८; जाद
 ३, ७; -ला: शि ७, १२५.
 सु-निश्चित- -त: त्रिवि १, १; -तम्
 ते ५, ४७; वरा २, १०; शि ७,
 १३१; गौ ५, १; -ता: गौ ४, ९२;
 ५५.
 सुन्दर- -रम् अन्न ५, ५८; सार
 २५२: ८; -राणि सार २७७:
 १९.
 सुन्दरी- -नीम् त्रिता १, ८५;
 २, २९; -र्यै: शि ४, २६.
 सौन्दर्य-
 सौन्दर्य-स्त्रीमा- -माम् रार २,
 ३३.
 सुन्दर-
 सुन्दरी^०- -नी त्रि ६.
 सुन्दरी-मनु- -नो: रया १८.
 सुन्वत्- / सु(अभियवे) द.
 सु-पक- -कानि शि ६, २०; -कै: शि
 ६, १४५.
 सु-पच्यमान- -ना: सार २८३: २२.
 सु-पध(ध>)ध्- -पथा ई १८; वृ ५,
 १५, १.
 सु-पयस्वि(र>)नी- -नी शि ६,
 १९९; ३००.

सु परिष्कृत- -नामि त्रि १२१^०.
 सु-पर्ण, णी^०- -र्ण: वृ ३, ३, ३; ४, ३,
 १९; मना २, ४०१^०; ए६; १२; गण
 १११^०; -र्णम् च ८; -र्णीं सुं ३,
 १, १; धे ४, ६; नाड १, ३; भव
 २, २; -र्णीं: मना २, ७३; वा
 २०; -र्णं वि २८; -र्णीं अन्न
 ४, ३२^०; गोड १३^०; वृह ४१.
 सुपर्ण-रथ- -थम् अव्य २.
 सुपर्णय- -या: मना २, ७१^०.
 सु-पुण्य- -ण्य: पा ७, ७; -ण्यम् पा
 ६, ३; ७, ७; ८, १.
 सु-पुष्टा(ष्ट-अन्न>)ङ्गी- -ङ्गीम् शि
 ६, २००.
 सु-पुष्टि- -ष्टिम् पा ९, ९.
 सु-पूजित- -त: त्रिवि ६, २१; -तम्
 ग १२; शि ६, २९.
 सु-पूज्य- -ज्यम् सिशि ३८३: १.
 सु-पूर्ण-
 सुपूर्ण-भूमन्- -मा सु २, २, ७४.
 सुप्त-सुप्ति-, सुप्त्या / स्वप् द.
 सु-प्रति(ष्टा>)ष्ट- -ष्ट: सु १, १, ७.
 सुप्रतिष्टा(ष्ट-अ)क्षर- -रम् धे १, ७;
 नाप ९, ६^०; भव २, ६.
 सु-प्रतिष्ठित, ता- -त: पै ४, ३; मु १,
 १, ९; -ता त्रिना २, ६८; योशि
 ६, ४७; जाद ४, १०; १६.
 सु-प्रती(क>)का- -का मना २,
 ४३१^०.
 सु-प्रदर्शन- -नै: पा १, १०.
 सु-प्रबोधित- -त: महा ५, ८२.
 सु-प्रशान्त- -न्त: गौ ३, ३७.

ब) *नाशवद्विधा... शि: ... दुर्द... न्द्रोऽम्बरी। पो नूक. स्वयति र्थया तिरनरण्याक्षेनः इति निशा १ यनि.
 शोषः द. । b) *पति: ... दुर्द... न्द्रोऽम्बरी। पो नूक. स्वयति र्थया तिरनरण्याक्षेनः इति निशा १ यनि. शोषः द. । c) = गन्धर्वविशेष - ।
 d) म्यु. = मयत्त - । e) *धिवा इति निगा. १ यनि. शोषः द. (तु. अष्वा., तान्त्रि.) । f) अर्थः । g) म्यु १ = नभा.
 क्री । h) म्यु. = सु-धीत - इति शं., = सु-प्यात - इति नादी. (उ. ज. C.) = सुधास्त - इति शं.दी. । i) तैमा ३,
 ११, १, ४ । j) द. ग. १२२९, ११ । k) प्राग. । l) वत. । m) = चावरणदेवताविशेष - । n) थ १, १०९, १ ।
 o) *ता इति निशा., अष्वा. १ यनि. शोषः द. (द. तान्त्रि.) । p) विप. वा नाप. वा । वैप १ वद. । q) तैतं ४, २,
 ९, ९ । r) मा १२, ४^० । s) थ १, १६४, २० । t) थ १०, ७३, ११ । u) *णां इति अष्वा. संदि. । v) *णां इति
 निगा. । w) तैमा १०, ९१, १ । x) स्वप् = इति निगा. १ यनि. शोषः द. (तु. धे १, ७) । y) तैमा १०, ४२, १ ।

सु-प्रसन्न- -ञः नाप ३, १९; -ञम् तो ३, ४२; १ योत ९३.
 सु-प्रावी- -व्ये दे २५^०.
 सु-प्रीत- -तः मै २, १; मैत्रि २, १; मैत्रे १, ४, १; अत्रि १; सूता ५, १४.
 सु-सवन-
 सुहवन-व(व>)वी- -वी सार २६९; ९.
 सु-यद्ध- -द्धम् वृद्ध ५, ७.
 सु-यद्हु- -हवः भव १, १२.
 सु-याल-
 सौबाल-
 सौबाल-बीज-प्रहो(हो-उ)-
 पनिषद्- -पव सुबा १६.
 सुबाल-सुरि-मन्त्रिका^{११}- -का सु १, १, ३२.
 सु-यी(ज>)जा- -जाः पा ८, १०.
 सु-ग्रहचारिन्- -री ह १२.
 सु-भक्त- -क्ताय बा ३३.
 सु-भक्ति-
 सुभक्ति-भक्त- -भान् सु १, ८.
 सु-भग, गा^{१२}- -गा अञ्च ५^१; -गा त्रिता २, २१; -गाम् सार २५२; ८; -गा त्रि ६; पा ७, ४; सार २२३; २; २३४; ६; २५३; १२; २६२; २३; -गाः सार २३७; १९; २५३; २१; -गाम् सार २६८; १९; कालि ४०१; १^१; २^१; पी ४२१; १; २या १.
 सौभग- -नाम् मता २, १५^१; १९^१; व ४६१; १७^१; -गानाम् त्रि १४; -नाय १ मन्वा २, ९४.

सौभाग्य- -यम् सार २, ६५;
 शि ६, ८८; व ४३५; १४.
 सौभाग्य-कमनोय(य-आ)-
 दि- -द्वयः नाप ४, २७^०.
 सौभाग्य-द- -द अञ्च ५.
 सौभाग्य-परमै(म-ए)का-
 (क-अ)क्ष(र>)री- -यां सौ १, २.
 सौभाग्य-लक्ष्मी-विद्या-
 -द्याम् सौ १, १.
 सौभाग्य-लक्ष्म्यु(क्ष्मी-उ)प-
 निषद्^{१३}- -पद्म् सौ ३, १.
 सौभाग्य-वर्धन- -नम् रजा २, १३.
 सौभाग्या(ग्य-आ)ब्ध- -ब्धः सार २५२; १६; -ब्धम् सार २४५; ५.
 सौभाग्या(ग्य-अ)र्वन- -र्वन पी ४२२; २१.
 सुभगा-त्रय- -यम् गुणो ४२०; १२.
 सु-भद्र^{१४}- -द्रः वृ २, ४.
 सु-भद्र(द>)द्रा^{१५}-
 सौभद्र^{१६}- -द्रः गी १, १८.
 सु-भस्म-रूप- -पम् सिशि ३८३; २.
 सु-भाषण- -णम् ते ६, २४.
 सु-भिक्षा, क्षा- -क्षा छां १, १०, ५;
 -क्षाल शि ६, १५८.
 सु-भूत, ता- -ता छां ३, १५, २; -तेन मन्वा २, ७७^१.
 सु-भूत- -तः क २, १, ८५^१.
 सु-भोजन- -नः क २३.
 सु-भोजि(ज>)जी^{१७}- -ज्या सार २२५;
 १९.

सु-भोग्य- -ज्याः सार २३७; २०; २२.
 सु-मङ्गल- -लम् सि ३, ४, ६, १९; २६.
 सु-मति- -तयः त्रि १, १३; -वीताम् सार २, ४५^१.
 सु-मथन- -नम् थो २, ४६.
 सु-मधुर- -रैः काम १०.
 सु-मध्यम- -मे जाद ७, ८.
 सु-मनस्- -नाः क १, १, १०; वृजा १, १^{१३}; नी १, ६५^१.
 सुमनः-पयना(न-आ)रूढ- -रुः त्रि ७५.
 ✓ सुमनस्^{१४}
 सुमनस्यमा(न>)ता- -ना मना २, ४१५^१; -नाम् र संन्या १६;
 ४१५^१.
 सुमनः-स्थल- -ले अञ्च ४.
 सुमन्त^{१५}- -न्तः सार २८९; २.
 सुमन्तु^{१६}-
 सौमन्त(व>)वी^{१७}- -वी गु ४.
 सु-मन्त्र^{१८}- -न्त्रः रापू ४, ३७.
 सु-महत्-चार-कुण्डल- -लम् ग ५.
 सु-मह(व>)ती- -ती शोचू ६६.
 सु-महोदधि- -धौ कृ १८^१.
 सु-मि(न>)त्रा- -त्राः मना १, ११५^१.
 सु-मि(त्र>)त्रा^{१९}-
 सौमित्रि^{२०}- -त्रिः राव २, १; शं ११.
 सुमित्र-तनय- -यम् रा २, १०४.
 सु-मुख- -तः दे १०; -तम् शि ६, ८५^१.
 सुमुखी^{२१}- -वी सार २६२;
 २३; -वीम् सुमु ४.

a) वैप १ यद. b) श्र १०, १२५, २। c) = ऐर्ष्यवत्, आवरणदेशाविशेष-, सतीविशेष-, बीजाक्षर-विशेष- प्रथ.। d) = स्त्री-बीजाक्षर-। सु^१ इति शान्ति.। e) मुक्तासु^१ इति पा.इ उच्यते सु^१ इति शोषः द.। f) श्र ८, ११, १०। g) तैशा १०, ४९, १। h) सौरभ्यक^१ इति अश्व.। i) = पार्षदविशेष-। j) तैशा ३, ७, १, २०। k) श्र ३, २९, १। l) श्र १, ३, ११। m) = गोविशेष-। n) मा १६, ४। o) कस.। p) श्र १०, १९, १। q) णा इति पा.इ यनि. शोषः द. (तु. गृह. १९०९६; वैतु. J.C.)। 'भृद्गीयमानम्' इति तैशा ३, १, २, ५। r) व्यु.। s) व्यु.। t) = अश्विनिविशेष-। u) = पार्षदविशेष-। v) = दानरविमन्त्रिनिविशेष-। w) तमहो^१ इति तैशा.इ यनि. शोषः द.। x) ऽप्रियाः इति मा ६, २२; J.C.। y) = रुद्रमण्डलात्-। z) = यतीविशेष- वा दधीविशेष- वा।

सुमुखा(ख-आ)दि-द्वयः वपू २, ४.
 सु-मेधस्-०घः वृ ६, २, ३; -धसः
 गौड ३४; -धसं सु १, १, ४९;
 -घाः तै १, १०, १; नाप ४, ३८५.
 सु-मेरु^१-रुः पित्र १, १०; -रोः महा
 २, २०; अत्र ३, २.
 सुमेरु-दावृ-त्तारः स्व ६१ : ७.
 सुमेरु-मठ-ठः म ४९ : ७.
 सुमेरु-हेमाद्रि-मलया(य-आ)घ-
 -घाः सार २२३, २२; २२४ : ११.
 सुमेरु(रु-उ)न्मूलन-नात् महा ३,
 २०.
 सु-यज्यन्-ज्वभिः च् ७.
 सु-यन्तृ-न्त्रे पा ७, २.
 सु-यन्त्रित-तः यो २, २२.
 सुयः^२ अत्र २.
 सु-युक्त-क्तः मैत्रि ४, ४.
 १सु-योग^३-गाः का ३
 सुयोग(ज>)जा^४-जा सार
 २४२ : १९.
 २सु-योग(ग>)गा^५-गा सार २४१ :
 १९.
 १सुर-
 सुरा^६-रया १संन्या २, ७५; -रा
 स्व ६१ : ९; -राम् छा ५, १०, ९;
 नाप ६, ३१.
 सुरा-गन्ध-न्धेन अध्या ५२.
 सुरा-य^७-यः शा २६
 १सुरा-यान^८-नम् मना २,
 ६४५; -नात् कै २, ५; श ३६;
 रा ५, १७; पुत्र ४; १अव ३३;
 भ १, ११; २, २२; वरा ५, ७५;
 वाउ ३, ७.
 २सुरा-यान^९-नैः स्व ६१ : ८.
 सुरा-याविद्-यी वि ३३.
 सुरा-भाण्ड-ण्डम् जा ६४, ५४.
 सुरा-मांस-रत-ताः सार

२७३ : १२.
 २सुर^{१०}-रः अद्वैभा ६; -राः नि ६;
 २१; त्रिवि ६, १; पं १९; कृ ३;
 २योत १, ६; वरा १, १; इ १५;
 ९; -राणां म १, ७; मैत्रि १, ४;
 ६, ३५; मैत्रे १, २; कृ १२; पा
 १०, २; गी २, ८; -रात् श ३०;
 भ १, २; -रैः १योत ७; कृ ११.
 सुर-गण-णाः गी १०, २.
 सुर-द्रुम-मः रा २, १.
 सुरद्रुम-तला(ल-आ)श्रय-
 -यम् गोपू ९.
 सुर-पति-तये त्रिवि ७, ३७.
 सुर-लोक^{११}-कं सि ६, ४५.
 सुर-चन्द-कर्तृ-त्रे पा ७, १.
 सुर-संसे(व्य>)व्या-व्या तुल
 ७१ : १.
 सुर-संघ-पाः गी ११, २१; -घात्
 श ११.
 सुरा(र-अ)सुर-राः ते ५, १३; ४४.
 सुरे(र-इ)न्द्र-न्द्रम् वपू १, ५५.
 सुरेन्द्र-मुख्य-ख्याः श १.
 सुरेन्द्र-लोक^{१२}-कम् गी ९, २०.
 सुरे(र-ई)प्सि(त>)ता-ताः रा २,
 ३५.
 सुरे(र-ई)त-ताः पा ८, १; -शम्
 श १३; -शाया पा ७-८, १.
 सुरे(र-ई)पितृ-त्रे पा ६, १०.
 सुरे(र-ई)मान-०न योशि ३, ४.
 सुरे(र-ई)धर-०र योशि १, १७४;
 ५, ४६; -राः श ५; -रैः गोच
 ६९ : ५
 सु-रक्षित-तः अव्य ६.
 सु-रक्षित, ता-तम् सार २६८ : १६;
 -ता सार २३८ : ७५; २६८ :
 १९५; २७१ : १५; २८४ :
 २१५.

सुरचित-मणि-वही-ही सार
 २७१ : १६.
 सु-रच्यमान-नानि सार २७१ : ५.
 १सुर-रत^{१३}-
 सुरत-कला-
 सुरतकला-काम-निद्रा-लजा-
 प्रेम-सुरतोक्कण्डा(एठा-आ)दि-
 -द्वयः सार २५३ : २१.
 सुरतकला-कोवि(द>)दा^{१४}-
 -दा सार २२३ : ४; २३८ : १०;
 २४२ : २२; २६८ : ११.
 सुरतकला-वा(त>)ती^{१५}-ती
 सार २४२ : २१.
 सुरत-केलि-ज्ञ-ज्ञः सार २२९ : ९.
 सुरत-न(म>)मा^{१६}-मा सार
 २८४ : १५.
 सुरत-नस-कोवि(द>)दा^{१७}-दा
 सार २२६ : २.
 सुरत-सु(ख>)क्वा^{१८}-खा सार
 २८४ : १५.
 सुरता(त-आ)गम-(त>)जा^{१९}-
 -जा सार २६३ : ४.
 १सुरता(त-आ)नन्द^{२०}-न्द्रम् सार
 २२९ : २१; २८० : ५; -न्दे सार
 २२५ : १८.
 सुरतानन्द-प्रेमानन्द-म(म>)-
 भा-भाः सार २६७ : ९.
 सुरतानन्द-भोग-गाः सार
 २५२ : ६.
 सुरतानन्द-रूप-
 सुरतानन्दरूपा-पाश्च
 सार २३२ : ११.
 सुरतानन्दरूप-रस-दाहृ-
 -त्रे सार २७७ : १२.
 सुरतानन्द-वशीकृत-स्वाधीन-
 पतिका-शृङ्गारा(र-आ)श्रम-
 सुख-दायिन्-यिने सार
 २५२ : १.

a) तैत्ति ७, १०, १। b) पा. वा. च १। c) सु सु इति सात.। d) प्राप्त.। e) घस. = नलीविशेष-।
 f) पैग २२.। g) उप. <√पा(पावे)। h) उप. भावे कृत्। i) तैत्ति १०, ६४। j) उप. कर्तरी कृत्।
 k) लक्षितम् इति निता.। l) 'द्वयामे' इति श्र २, ११, १। m) प्राप्त. उप. भाप. <√रम्। n) तस.।

सुरतानन्द-समग्र-वसोक्त-
रसिकानन्द- न्दाय सार २५१ :
२२.
सुरतानन्द-सुख- -सुख सार
२६९ : २०; २७१:२०; २७२:
३; २७३: २०; २८२: २०;
२८७: १८.
सुरतानन्द-स्थान- -नम् सार
२३४: ३.
सुरता(त-आ)नन्द, न्दा- -न्द:
सार २६६: १७; २८७: १८;
-५^१न्दा सार २६६: २; २३४: ५;
२३८: ४; २६८: २२; २८२:
१०; २८४: १५; न्दा: सार
२४८: १४; न्दाय सार २६१:
३; न्देन सार २८१: १३.
सुरतानन्दा(न्द-आ)दि- -दय:
सार २७०: १६.
सुरता(त-अ)न्त-निद्रा-
सुरतान्तनिद्रि(त>)ता- -ता:
सार २२३: ५.
सुरतो(त-उ)रुण्डा- -रुडा सार
२८२: १०^५; -रुडाम् सार
२८४: १९.
सुरतोक्कण्डिन्- -ण्डिने सार
२५१: १७.
सुरतो(त-उ)थि(त>)था- -ताम्
सार २८६: १८.
सुरतो(त-उ)रसा(ह>)हा^१- -हा
सार २८४: १९.
सुरतो(त-उ)र(म>)मा^१- -मा
सार २६८: २२; २८४: २०.

सुरतो(त-उ)पदेश(श>)शा^१- -शा
सार २६८: ११
सुर-रत- -रतम् पा ९, ७; -ता: पा
९, १०.
सुरभि- -भि छां १, २, ३; १; -भि:
मना २, ४^२; ४^३; वृजा १,
१; वपु १, १; -भीणि शि६, ३४.
सुरभि-विद्या^१- -द्या राधा २, १०;
-द्या: गोप् २५.
सुर-रस- -रस: पा १०, ३; -साय पा
९, १.
सुर-रागिन्- -गिण: ते १, ४६.
सुर-राप्^१- -रप्: राप् ४, ३७.
५^१सुर-रुच- -रुच: मना १, १०; २ संन्या
१६: ६; रसिं ३२.
सुर-रूप, पा- -पा शां ३, १; -पाम् छां
२, १५, २.
सुर-रेखा^१- -खे तारा ८३: २३.
सुर-रेतस्- -रत: गोप् १५.
सुर-रोचमा(न>)ना- -ना सार २८७:
११.
सुर-लक्षण- -णम् गोच ६९: ८.
सुर-लक्ष्य- -क्ष्यम् पित्र ६, १६.
सुर-लक्ष- -क्ष: योशि ६, ३९.
सुर-ल(ज>)ज्जा^१- -जा सार २६९: २.
सुर-लभ- -भ: मैत्रे ३, १५; १ संन्या
२, ३४; पित्र ५, ५; गो ८, १४;
-भम् रार १, ८; का ४; नार ३;
शि ३, १३.
सौलभ- -भम् रार १, ८.
सुर-लहरी^१- -री सार २६९: ९.
सुर-लोहि(त>)ता^१- -ता सुं १, २, ४.

सुवर् (1) तै १, ५, १, २; ३; ६, २;
३, १०, ६; मना १, २^५; ४^५;
१४^५; १५^५; २, ३^५; ४^५;
८^५; १०^५; २१^५; २५^५;
३७^५; ६८^५; ७५^५; सुं १, १८;
नाप ४, ३८; त्रिवि ७, ४४^५;
राउ ४, १; पप ४ १८: २४^५;
सू ६५^५; ता ३, १.
सुवर्-रुच- -रुचम् वड ३१६:
१४^५.
सुवर्-यत्- -यत: धे २, ३^५.
सुवर्-लोक^१- -क: नाद ३^५; -कम्
वृजा ८, ४; -का: -केपु सुवा १०.
सुवर्ग^१- -र्ग: -र्गस्य मना २, ७^५;
-र्गात् मना २, ७^५.
सुवर्गैय- -वाय धे २, २^५.
सुवर्गै- -र्गैय ते १, ३, ४.
सु-वर्चस्- -वर्च: सुं १, २, ६; -वै:
वड ३, ६.
सु-वर्ण^१- -र्ण: छां १, ६, ६; -र्णम् छां
३, १९, १; २; ४, १७, ७^५; वृ
१, ३, २६^५; मन्त्रि ८; नाप ७;
महा ३, ३८; १ संन्या २, ७९;
सार २८७: २; शि ६, ९०; व
४५५: २१^५; -र्णस्य शि ६,
२०२; -र्णात् योशि ४, ७; -र्णाथ
मना २, १६^५; -र्णेन छां ४, १७,
७^५; सार २३९: १३.
सौवर्ण- -र्णम् अत्र २^५; -र्णाणि
सार २३७: ३; -र्णे वृजा ३, ६,
सौवर्ण-अण्डय- -ये रार २,
४४.

a) वष. 1. b) =मस्त्रीविशेष-। c) वषा. वैप १ यद.। d) तैष्या १०, ४१, १। e) तैष्या १०, ४२, १।
f) =दाशरथिमन्त्रिविशेष-। g) मा १३, ३। h) =वीजमन्त्रविशेष-। i) इ. गप. पृ २२९, ५। j) वैप १ यद.।
इह =व्याहृतिविशेष-, लोकविशेष-। k) सुवर्णं इति Jc.। l) तैष्या १०, १, २। m) 'स्वः' इति मा ३२, १२।
n) 'स्वः' इति श्र १०, १९०, ३। o) तैष्या १०, १, १५। p) तैष्या १०, २-४, १^१। q) तैष्या १०, ६, १। r) तैष्या १०,
८, १। s) तैष्या १०, २३, १। t) तैष्या १०, ३५। u) तैष्या १०, १५, १। v) तैष्या १०, ६३, १। w) तैष्या १०,
२७, १। x) तैष्या १०, २८, १। y) 'स्वर्द्वयम्' इति श्र ७, ३३, २२। z) 'स्वर्गम्' इति मा ११, ३। a') स्वर्लो^१
इति धान.। b') वैप १ यद.। c') तैष्या १०, ६३, १। d') 'स्वर्गवैप' इति मा ११, ३। e') जैठ ३, ४, ३, ३।
f') तैष्या ३, ११, १। g') तैष्या १०, १६।

सौवर्ण-शेष्य-साप्र- श्रेः
 शि ७, ५६.
 सौवर्णा(र्ण-आ)दि-
 -दीनाम् वहं ४.
 सौवर्णा(र्ण)अ;शुभ-मध्य-
 (ग>)गा- गाम् व ४२७ :
 ११.
 सुवर्ण-गन्ध- -न्धेन सार २८७:१.
 सुवर्ण-जटि(त>)ता- -ता: सार
 २८७:२.
 सुवर्णजटित-मणि- -णिभिः
 सार २८४:४.
 सुवर्ण-जाम्बूतद-प्राहार>)रा-
 -रा: सार २५३:३.
 सुवर्ण-ज्योतिम्- -ति: वृ५ २, १८.
 सुवर्ण-तार-गुम्फित- -तम् सार
 २४५:६.
 सुवर्ण-रथ- -रथम् योशि ४, ७.
 सुवर्ण-निचित- -तम् शि ६, १०७.
 सुवर्ण-पक्ष- -क्षाय मना १, ६;
 व ४६३:२.
 सुवर्ण-पात्र- -त्रम् नाप ४, ३८.
 सुवर्ण-भित्ति- -त्तिषु सार २२२ :
 ११.
 सुवर्ण-भूमि-जटित- -खचित-
 -तम् सार २६८:३.
 सुवर्ण-भूपण- -णानि सार २४४ :
 २३.
 सुवर्ण-यू(यक>)थिका- -का: सार
 २७०:२३.
 सुवर्णयूथिका-प्रवाल- -लैः
 सार २५३:६.
 सुवर्ण-लता- -ता: सार २२५:६;
 २४२:५; -ताभिः सार २३७:
 १२.
 सुवर्णलता-प्रथि(त>)ता-
 -ता: सार २३३:१०.

सुवर्ण-लिङ्ग- -ङ्गाय मना २, ११५.
 सुवर्ण-वर्णा(र्ण)णां- -र्णा: सार
 २८३:१५; -र्णासु सार २८८:७.
 सुवर्ण-सरत-प्र(भा>)म- -मम्
 गह ५.
 सुवर्ण-संपुट- -टौ सार २४४:१६.
 सुवर्ण-सुगन्ध-लता-प्रथि(त>)-
 ता- -ता: सार २३९:४.
 सुवर्ण सुगन्ध-संघलित- -ता: मार
 २२२:७.
 सुवर्ण सुगन्ध-सुशोभल- -लानि
 सार २८७:१०.
 सुवर्ण-स्नेह- -यात् कै २, ५.
 सुवर्णस्तेयिन्- -यी मृ ६.
 सुवर्णा(र्ण-आ)श- -क्षे शि ६, १९०.
 सुवर्णा(र्ण-आ,दि- -दीन् नाप ३,
 ८६.
 सुवर्णा(र्ण-आ)म- -मम् गह ५.
 सुवर्णा(र्ण-आ)लवाल-श्रेणि-
 -णयः सार २६७:१६.
 सु-यसन^१- -नः, -ने छां ८, ९, १, २;
 -नौ छां ८, ८, २, ३.
 सुवान- $\sqrt{\text{सु(अभिपवे) द.}}$
 सु-वासस्^२- -सा: सर २, १५^३; अह
 १७५^१.
 सु-वासित^३- -ता: सार २५३:१३;
 -तै: सार २६९:५.
 सु-विशेष्य- -यः क १, २, ८; राउ ५,
 २; ३.
 सु-विदित- -ते रुह २७
 सु-विद्या-पाद- -दः त्रिवि १, ७
 सु-विभात- -तः वृउ ८, ४; -नम् वृउ
 २, ३; ६, २, ९, १६; १८.
 सु-विरुद्ध-मूल- -लम् गी १५, ३.
 सु-विशुद्ध- -दः शि ५, ४१.
 सु-विस्तर- -ता: सु १, १९.
 सु-विस्तीर्ण>)र्णां- -र्णासु शि ६,

११९.
 सु-विस्फुट- -टः वृउ ९, ११^४.
 सु-विहार-
 सुविहार-य(त>)ती^५- -ती
 मार २४२:२२.
 सु-विह्वल- -लम् शि ४, २८.
 सु-वीजित- -तम् गह ५.
 सु-वीर- -रम् २शिसं ७; -रा: मना
 २, ४१५^६.
 सु-वीर्य^७- -यी: रगंया १६: १०५^६.
 सु-वृत्त- -त्तम् नाप ४, ३४; -त्ताय श
 ३३.
 सुवृत्त-नासा-युगल- -लः राधा
 ३, १२.
 सु-वृष्टि- -ष्टि: छां ७, १०, १^९.
 सु-व(प>)या- -याम् कालि ४०३:
 १८.
 सु-व्यग्र- -ग्रम् महा ३, १८.
 सु-व्यत- -व्यत श २१; ३५; योशि ३,
 १२; अक्ष ५, २९; ७४; जाद १,
 २२; ४, १०; २५; २७; ६, १६;
 २१; २३; ७, १०; ८, १; ९, ५;
 सर १, ३; -ताय श ३३.
 सु-शिक्षित- -तः गौ २, ८; जाद ५, २.
 सु-शीतल- -लेन सार २३३:२३.
 सु-शील^८-
 सुशीलिन- -लिनः शा ११; -लिने
 श ३३.
 सु-शील,ला^९- -ला वृजा १, १^१;
 -लाय सु १, ४९.
 सु-शुद्ध- -दः त्रिवि १, ४.
 सु-शेव^{१०}- -वम् बा २.
 सु-शेवधि- -धये पा ७, २
 सु-शोभन,ना- -नः सार २, ५७:१७;
 -नम् १योत ३२; शि २, १०;
 ४, ६; ६, ९९; २६०, ७, ६४; -ना
 शि ४, १५; -नाम् शि ३, ५.

a) हाटकदी^१ इति शब्दा. । b) तैश्चा १०, १, ६ । c) तैश्चाश्च १०, १६ । d) उप. =२वासस्- e) श्र
 १०, ७१, ४ । f) तैश्चा १, २७, २ । g) उप. =२वासित- । h) °उत्तमः इति निसा. । i) =स्वीविशेष- । j) तैश्चा १०,
 १९, १ । k) वैप १ यद. । l) शी ७, १०, २, ६ । m) प्रास. । n) वत. । o) =गोविशेष- ।

सुशोभन-सठ-ठम् शां १,५.
 सु-शोभमान- -नम् सार २६८:५.
 सु-शोभा(भा-आ)ढ्य,ढ्या- -ढ्यम्
 सार २३२: १५; -ढ्या सार
 २७१: १४; -ढ्या: सार २३२:
 १५; २३३: १५; २८८:८; -ढ्ये
 सार २३४: १.
 सु-शोभायमान- -नम् सार २५८:
 १५; -ना: सार २३७: ८.
 सु-शोभित- -तम् त्रिवि ७,१९; सि
 २,१०; ४,४९; ५-६,९; ३२:८.
 सु-श्रो(णि>)शी^१- -शी सार २६८:७
 रसु-श्लोक^१-
 सुश्लोक-मौल(इति^२)- -ले(इले:२)
 सु २९४: १.
 रसु-श्लोक^१-
 सुश्लोक-देवप्रत्य-वरूप्य-कृष्ण-
 बलराम-देवहार-कुमुद-रोचि-
 ष्मद्-रमणा(ण-आ)घ- -घा:
 सार २४९: ५.
 सु-वारथि- -थि: १शितं ६;
 २शितं ५.
 सुपि^१- -पि: द्वां ३, १३, १-५; -थी
 मैत्रि ७,११.
 सुपिर,रा^१- -र: शां १,७,३९^१; -रम्^२
 गर्भे १; मना २,१३,३५^२; न २;
 ३,१२; अना २७; ध्या ९३;
 शारी १; योधि ६,९; अक्ष ३;
 -रा: योधि ६,१५^१।
 सुपिरा(र-आमक>)मिका- -का:
 योधि ६,१-१^२।
 सु-पुन- -स: वृ २,१,१९; मना २,
 ५९^१। -सम् मां ५; न २; ३,
 १३; वृ ४,६, वृ १,८; १०:
 ११; मुना १५; मसा १, १०;
 नाप ५,१; ६,१^१; ८, ११; १५;

१७; विद्वा २,१०; १५०; राउ
 ३,१; अक्ष ५,१६; विद्या३; वउ
 १,९; ५,३६; पित १,१४; ६,८;
 १०; सस्य मे २,५; अक्ष १,५३;
 -से गौ ३,३४; ३५; न २^१; वउ
 २, १; नाप ६,१; शां १,७,२९.
 सुपुस-वा- -ता अक्ष २,१२.
 सुपुस-तुीय- -य: पप ४१९: ३१.
 सुपुस-तैजस- -स: पप ४१९: ३१.
 सुपुस-पद- -दम् अक्ष ३,१७.
 सुपुसपद-ना(मक>)मिका-
 -काम अक्षि ३४.
 सुपुस-प्राज्ञ- -ज्ञ: पप ४१९: ३१.
 सुपुस-भाव- -व: अक्ष ५,१०९.
 सुपुस-भूत- -ते न १^१।
 सुपुस-मगस्- -न:(इना:२) अक्षि
 ३५.
 सुपुस-वव महा ६, ४९; २ अक्ष
 ३३८: ८.
 सुपुस-विश्व- -श्व: पप ४१९: ३०;
 वरा ४,१.
 सुपुस-सद(रा>)ती- -शी अक्ष ५,
 ८४.
 सुपुस-स्य- -स्य: नाप ८,१३; अक्ष
 ५, ११६.
 सुपुस-स्थान- -न: मां ५; ११; वृ
 ४,६; वृ १,८; २,७; राउ ३,१.
 सुपुस-स्यैवै- -सैम् अक्ष ३,१८.
 सुपुसा(सि-आ)ख्या- -ख्या अक्ष ५,
 ८८.
 सु-पुत्ति^१- -सि: इं ८; अ ३; शारी ५;
 यो २,४७; वउ ३,१०; -सिम् या
 २,२२; -सौ ध्या ९३, १३; महा
 ४,४४; पप ४१९: २२; शध्या
 २५; पव २; यो ३,२९; राधा
 १,१; -प्या पा १,८.

सौपुस-
 सौपुसी- -सी महा ५,
 १९१^१; -सीम् अक्ष २,१९.
 सौपुस-स्थिति- -ति: अक्ष
 २,१३.
 सुपुसि-क- -कम् महा ५,८.
 सुपुसि-काल- -ले कै १,१३; नाप
 ५,१; वरा २,६२.
 सुपुसि-पद-ना(मक>)मिका-
 -काम वरा ४,१४.
 सुपुसि-मात्रा-वृत्तय- -यम् पप
 ४२०: २२.
 सुपुसि-वत्त विद्वा २,१६५; महा २,
 ४६.
 सुपुसि-समाधि- -प्यो: मं २,३,३.
 सुपुसि-स्य,स्था- -स्य: अक्ष ३,
 १२; वरा ४,२३; -स्था १संस्था-
 २,४४.
 सुपुसि-स्थान- -न: विद्या ३; वउ १,९
 सुपुसि-स्वरूप-
 सुपुसिस्वरूप-वत्- -वात् ते
 ३,४५.
 सुपुष्य(सि-आ)भिमामिन्- -नी पे
 २,३०.
 सुपुष्य(सि-आ)वस्था- -स्था ध्या
 ९३, १३; पे २,४२; -स्थायाम्
 मं २,४,४; पप ४१९: २६.
 सुपुष्यवस्था(स्था-आ)पत्र- -शे
 नाप ५,१.
 सुपुष्या(सि-आ)दि-चतस्- -स: न
 नाप ६; १; पप ४१९: २२.
 सुपुष्या(सि-आ,घ(दि-अ)साक्षिन्-
 सुपुष्यघासाक्षिन्व- -वम्
 तां १,१४८.
 सुपुष्यु(सि-उ)क.न्ति- -न्त्यो: प्रम्
 १,३,४२.

a) विप. । b) पा.१ यनि. शोष: द. । c) मा ३४,६ । d) सु१ = इन्द्र- । e) सु१.६ ब्रमा. वैप१ यद. ।
 f) = १मवृ- । g) = द्वि- । h) तैसा १०,११,२ । i) पा.१ 'सु-मिरा->-रा:' इति शोष: द. । j) निता.१ (दु-
 तैसा १०, ५९) ०सा: इति शोष: द. । k) 'ही इति निमा. । l) ०त: इति आन. । m) निता.१ यनि. शोष: द. ।
 ०सधन: इति अन्ता. । n) ०ति: इति पा.१ यनि. शोष: द.

सु-(सु>)पु(ष्प,गु)>म्ना, म्ना^१-
 म्ना वरा ५, २३^०; म्नायाः^०
 वरा ५, २३; २४; -म्या ध्या ६७;
 त्रिमा २, ६७; योचू १२; ३९;
 योशि ६, ३४; जाद ६, ४२; -म्रा
 जु ८; १६; १८: म्या ५२; ५६;
 २०१; त्रिमा २, ६८; योचू १६;
 १९; नै १, २, ६; अता ५; वा
 १४; योशि १, ११५; ५, १७;
 ६, ५; १; १८; २२; ४५; मा १४;
 यो १, ६२; जाद ४, ५; ७; १०;
 वरा ५, ३०; योरा १२; पा ८,
 ३; -माम् १यौत ८३; योशि ६,
 १६; यो १, १३; १४; ३, ७^०; सौ
 ३, १; -म्यायाःशां १, ४; यो १, १४;
 जाद ४, १३; १८; ३५; वरा ५,
 २६; -म्यायाम् १यौत ८२; ११९;
 योशि १, १०६; ११५; ११९;
 १३१; ६, ३५; ३६^१; ३७; ३८^०;
 ३९^१; ४४; ए १^०; यो १, ४७;
 -म्यायै योशि ६, ३.
 सुपुष्पा(म्रा-आख्य)>म्या- क्वा
 मैत्रि ६, २१.
 सुपुष्पा-द्वार- नम् योशि १, ७५.
 सुपुष्पा-प्यान-योग- नास्य योशि
 ६, ४३.
 सुपुष्पा-प्यान-केवा- -नास्य योशि
 ६, ४१^०.
 सुपुष्पा-नादि-महल- -ले वरा ५,
 ६७.
 सुपुष्पा-नादी-रय-मल-शोया-
 (य-अर्थ- -थैम् शां १, ७, १.
 सुपुष्पा(म्रा-अ)न्तर-गत- -तम्
 योशि ६, १३.

सुपुष्पा-पश्चिम- -मे वरा ५, २५^१.
 सुपुष्पा-पार्श्व- -श्वयोः जाद ४, १४.
 सुपुष्पा-पूर्वभाग- -मे शां १, ४.
 सुपुष्पा-पृष्ठ-पार्श्व- -श्वयोः शां १, ४.
 सुपुष्पा-मार्ग- -र्णेण शां १, ७, ३७.
 सुपुष्पा-वज्र-नाल- -लेन योशि १,
 ११८.
 सुपुष्पा-वदन- -नम् शां १, ७, ९;
 -ने यो १, ६७.
 सुपुष्पावदना(न-अ,न्तर- -रे
 योशि १, ८६; यो १, ६६.
 सुरो(म>)मा^१- -मया मना १,
 १३^०.
 सु-पुटु(<स्तुत)>ता- -ता दे ५;
 सार २, ८.
 सु-पुटु(<स्तु)ति- -ती^१ पा ७, ४.
 सुपुटु^१ महा २, ५३; स्व ६१: १२;
 सार २८७: ३.
 सौष्टव- -वम् सार २३८: २३; -वेन
 सार २६६: १६.
 सु-प्यप^१- -ये व्र १.
 सु-संयत- -तः त्रिमा २, ५३; शि
 १, २.
 सु-संयुत- -तम् शि ६, १३५.
 सु-संयोज्य अता ११.
 सु-संलक्ष- -प्रम् सि ६, ११.
 सु-संवेद्य- -वम् योशि ३, २०.
 सु-संसिद्ध- -द्धः सार २३९: १०.
 सु-संस्कृत- -तम् शि ६, ३२.
 सु-संस्थाप्य त्रिमा २, ४०; ४१; त्रिवि
 ६, २५.
 सु-संगत- -ताः वरा ५, ४३.
 सु-संत्यक्त- -क्तम् महा २, ५१.
 सु-सम^१- -माः महा २, २७; अम २, ५.

सु-समाहित- -तः १यौत ४२; नाप
 ६, १८; शां १, ३, ६; जाद ५, ६;
 वरा ५, ३३; -तम् वृ ४, ३, ३५.
 सु-समिद्ध- -द्धस्य मैत्रि ६, २८.
 सु-समुद्रिका- -कया महा ३, ४७;
 या २, १३^०.
 सु-संपाद्य वृजा ३, ३०.
 सु-संपूज्य त्रिवि ५, १३; ६, २५.
 सु-संपूर्ण- -गं: शि १, १५; -णं शां
 १, ५.
 सु-संवद्ध- -द्धः योशि १, ५९.
 सु-सारा(>)रा- -राः पित्र ५, २.
 सु-सिद्ध- -द्धः हे १२.
 सु-सी(म>)मा- -मे कौ २, ८^१^०;
 १०^०.
 सु-सुख^१- -खम् अभाया ६४; गौ
 ९, ३^०.
 सु-सुख(>)खा^१- -खा सार
 २६९: २.
 सु-सुगन्धा(न्ध-आ)ढ्य- -ढ्यम्
 सार २३९: ४.
 सु-सूक्ष्म- -क्ष्मः पा १, २; -क्ष्मम् सुं
 १, १, ६; शारी ५^०; महा ४, ८६;
 शां २-३, १; पाद्य २, २९; रुद्र
 ३२.
 सु-सुधमान, ना- -नः सार २३६:
 २१; -नाः सार २३६: १९^१;
 २६८: २१; २६९: २.
 सु-सुधित- -तम् त्रिवि ७, ५०.
 सु-सुधेय-
 सुसेव्य-ता- -ताम् सार २२०: १७.
 सु-सुधेयमा(न>)ना- -नाः सार
 २३८: १३.
 सु-स्थ- -स्थः सांका ६५.

a) वैपरी यद. । इह = नाडीविशेष- । b) म्ना इति शब्दाः । c) म्नायाः इति शब्दाः । d) म्नाया इति शब्दाः । e) म्नायोरय इति शब्दाः । f) गपु (पु ५-१) सस्य. 'पश्चिम-> -मे' इत्यत्र यति. बोध. कर्तव्यः । g) वैपरी यद. । h) श्र १०, ७५, ५ । i) श्र ८, १००, ११ । j) तु. गपु. पु ७-२७m । k) अयम्. वैपरी यद. । l) = सुपुति- । m) उप. = १सम- । n) मुद्रितवपा इति शब्दाः. मंटे. । o) मम् इति निमा., आन. [इ. ०] समिष् इति शांका. (४, ८), इयसी इति शब्दाः. यति. बोध. इ. । p) तु. संभा १, ५, १०; वैपु. 'सी' इति शांका ४, १०; स्वसी इति शब्दाः । q) प्राय. । r) वा. विदि. इ. । s) उप. विर. । 'सुपुष्पं कर्तुम्' इति वा. ? । t) वत. = समीविशेष- । u) सु इति शब्दाः ।

सुस्थित- -तम् सि ७, २१.
 सुस्थिर- -रः महा ६, २८; -रम्
 वा ५, ६०; ७२.
 सुस्निग्ध-
 सुस्निग्ध-मधुरा(र-आ)हार- -रः
 योचु ४३; यो १, ३.
 सुस्नेह(ह>)हा- -हा सार २८२:५.
 सुस्वर- -रेण सार २८२:५.
 सुस्वर-
 सुस्वर-कण्ठ- -ण्ठेन सार २८१:३.
 सुस्वाद- -दाः सार २३८:२.
 सुहय- -यः वां ५, १, १२.
 सुहव(व>)वा- -वाम् पा ७, ४.
 सुहित-
 सौहित्य-
 सौहित्य-करण- -णम् भा२७:१.
 सुहुत- -तम् वृ ६, ४, २४; मना २,
 ७५.
 सुहृद्- -हृत् सुवा ६; ते २, १८;
 महा ५, ८०; गुह्य ९; गी ९, १८;
 -हृदः नाप ४, ७; महा ३, ३५;
 शा ३०; निर १, १८; कथु १, १;
 गी १, २७; -हृदम् गी ५, २९;
 -हृदिः शि ६, १७८.
 सुहृन्-प्राप्ति- -ति. संज्ञ ५१.
 सुहृन्-मित्रा(त्र-अ)सुं(रि-उ)दासीन-
 मयश्श-द्वेष्य-बन्धु- -न्धुषु गी
 ६, ९.
 सुहृष्ट- -ष्टः महा ५, ८२.
 सुहृष- -हृषः आर्षे ८:१४.
 √सू(प्रसवे), सुवत् सू २३९.
 सावीः मना २, ३९९.

रसव- -वे श्वे २, २९.
 सवितृ- -०त्तःमना२, ३९९^म; -ता
 छा १, १२, ५; श्वे २, १९^म; ३९^म;
 मै ५, ७^म; ८^म; मैत्रि ६, ७^म; ८^म; मना
 १, १२९^म; २, ३५९^म; वृ २, ११९^म;
 वृ २, ८; ए १२; सू २१; २२;
 २३^म; २४; सावि १^म; २^म; त्रिता १,
 १९; २३ ३६: १९९^म; शि ५,
 ४२^म; गार ४०५: १७; वृ ३७:
 ७९^म; -तुः छां ५, २, ७९^म; वृ ६,
 ३, ६९^म; श्वे २, २९^म; ४९^म; ४,
 १८; मै ५, ७९^म; मैत्रि ६, ७९^म;
 ९; ३४९^म; मना २, ३५९^म; त्रिवि
 ७, ३९९^म; ४४९^म; सू ६९^म; सावि
 १०^म; ९^म; ९^म त्रिता १, ५; १९;
 ३७; ४०; ४४; ५१; ५२; पारा
 २; ५९^म; शि ४, १८; गार ४०५:
 १३; १७; गुह्य १; वृ २९: १८९^म;
 ४५७: ९९^म; वृ १, १९^म; -आ
 श्वे २, ७; श्वे वृ ६, ४, १९; पा
 ७, १; वृ १, ३.
 सावित्र- -त्रः सूता ३, ६;
 -त्रम् वृ ४४, १०; सूता ३, ५^म;
 ६; ९; पा ७, ७; गार ४०५: १७;
 ४०७: ७; -त्रस्य वृ १, ६; ४,
 ८; सूता ३, २.
 सावित्री- -०त्रि व
 ४३१: १०; ४३६: ७; -त्री
 मना २, २८९^म; अशि १, ५;
 ६, १५; वृ ४, ८; शां १, ६;
 सावि १^म; २^म; त्रिता ४, १२; ३४;
 सौ १, ३; म२२: सु१, १, ३७९^म;

वटु ३१७: २२; गार ४०५: ८;
 ४०६: १२; १३; १९; -त्रीम् वृ
 ५, १४, ४^म; ५^म; ६, ३, ६;
 मना २, ३५९^म; वृ १, ७^म; ४, २;
 नाप ४, ३८; सू ३०^म; सावि १०;
 गा १६; -त्र्या मै ५, २; मैत्रि ६,
 २; अशि ६, १६; सावि १०; वटु
 ३१७: २२; गार ४०५: ८; -त्र्ये
 व ४६२: २१.
 सावित्री-प्रवेश-
 पूर्वक- -कम् १^म पप ४१८: २०.
 सावित्र-रूप- -रूपम् पा
 ७, ७.
 सवित्रा(तृ-आ)श्व- -श्व्यः मैत्रि
 ६, १६१^म.
 सूत-
 सूत-प्राग्णी- -ण्यः वृ ४, ३,
 २७; ३८.
 सूत-पुत्र- -त्रः गी ११, २६.
 √सू(प्रसवे), सूते त्रिता १, २०.
 सूते मन्त्रि ४; गी ९, १०;
 सूयन्ते मैत्रि ६, १६.
 सुवे वे ३९९^म.
 सुपुत्रे वा ८, ६.
 सू-सू- वा १३.
 सूत-
 सूत-क- -कम् ते ६, २९; सिशि
 ३८१: १०; -के मैत्रि २, ७.
 सूतिका- -कानाम् शि
 ५, ३.
 सूतक-द्वय-संमार्ति- -सौ
 मैत्रे २, १३.

a) प्राप्तः । b) वसः । c) वसः उप. < √ह्वे । d) लो^० इति निरा^० इति शोषः इ. (तु. निरा^० संदि.
 अग्या.) । e) सैषा १०, ६३, १ । f) पा ५, ४, १५० । g) ०हु^० इति अग्या. । h) तु. गृ. वृ १७३। i) श्व १०,
 १९, १४ । j) श्व ५, ८२, ४ । k) वैपरी यरः । l) मा ११, ३ । m) श्व ५, ८२, ४, ५ । n) मा ११, १ । o) मा
 ११, ३ । p) सैषा १०, १, १२ । q) सैषाम्मा १०, ३५ । r) तेना ३, १०, १, २ । s) मा १, १ । t) पा. इति शोषः
 इ. । u) श्व १, ३५, २ । v) श्व ५, ८२, १ । w) श्व ३, ६२, १० । x) श्व ५, ८१, १ । y) 'पद्वीः' इति श्व ९, ९६, ६ ।
 z) =देवीविशेष-, विद्याविशेष-, तदात्मोपनिषद्विशेष- । a') सैषा १०, २१, १ । b') विप. । c') ०त्री इति अग्या. ।
 d') वा. द्वि. इ. । e') ०वित्ता^० इति पा. (तु. सात.) अनि. शोषः इ. । f') =सावि- । g') श्व १०, १२५, ७ ।
 h') पाता ७, ३, ४५ ।

सूतका(क-अ)घ- -क्ष्म भव
 छ, १२.
 सूति- -सत्ये वृ ६, ४, २२५°.
 सुवु^०- -लुः प्रा २, १.
 सूकर^०- -रः इ १६ : १०.
 सूकरी-
 सूकरी-विष्ठा-स(म)मा-
 -मा नाप ५, ३.
 सौकर- -रम् रापु ४, ५६.
 सूकर-मूत्र- -ग्रम् १संभ्या २, ७५
 सूकर-योनि- -निम् छां ५, १०, ७.
 सू(घ-उ/क्त- -कस्य वृजा ३, १२^०;
 व ४५०; १६५^०.
 सूक-याक- -कः प्रा ३-४, १.
 सूक्ष्म, क्ष्मा^०- -क्ष्मः गी २, २३; मै २,
 ५; मैत्रि २, ५; मैत्रे १, ४, ११;
 अशि ३, ५; छ, ११; ते ३, २९;
 आयो छ; योचु ७५; १आ १;
 २आ ३; पा ८, १; वट ३१५; ५;
 ३१६ : २; अट्टेमा १३; -क्ष्मम्
 हं १११; मना २, १३, २५^०; अना
 छ; अशि २, २३; ३, ६; ७; ११;
 १२; छ, ११; १२५^०; वृव १, ७;
 ससा १, ३८^०; ते १, १; २, ११;
 नाद ३६; ३७; त्रिमा २, १५९;
 योशि १, ६७; २, १४; १५^०; १७;
 ५, २८^०; ३४; ६, ९; अज ५,
 ६५; अस्या ६२; कठ ३२; यो
 ३, १७; जाद ३, ८^०; वरा २, ६८;
 च २१ : २०, २१, पा ७, ७; सार
 २५५ : २; षट् ३१४ : १८;
 ३१५ : ५; १२^०; ३१६ : २;
 ३५^०; सि ६, ४१; स३७२; १५;
 १६; भव ३, ५; शि ६, १२;
 गांवा ३७; प्रम् १, ४, २; छ, २,

१; -क्ष्मया क १, ३, १२; महा
 २, १२; -क्ष्मा ते १, ५^०; त्रिवि
 १०; रापु ४, ५९^०; शां १, ४;
 १प्र ३१ : १७; -क्ष्माः त्रिमा २,
 ७५^०; ७६; सार २६६ : ११;
 व ४३४ : १; सांका ३९^०; योस्
 २, १०; -क्ष्माणि शे ५, १२; पै
 १, २७; कठ १५; सार २६६ :
 १४; -क्ष्मात् मुं ३, १, ७; कै १, १६;
 त्रिवि ७, १७; योशि १, ४२;
 २शिंसं १२; गु ३६; -क्ष्मान् पा
 २, ८; -क्ष्माम् शां १, ३, ९;
 -क्ष्मे नाद ३७; स ३७९; १६;
 -क्ष्मेण अशि ३, ७; पै ३, १; च
 २१ : २१; वट ३१५; ६; -क्ष्मैः
 शे ६, ३; पा १, १०; गु ५५.
 सौक्ष्म्य- -क्ष्म्यात् मैत्रि २, ७;
 महा ५, ९९; सूता १, ८; सांस्
 १, १०९; ३, २२; सांका ७; ८;
 गी १३, ३२.
 सौक्ष्म्य-रथ- -रथात् मैत्रि ६,
 १४.
 सूक्ष्म-क- -कः महा २, ३.
 सूक्ष्म-तन्मात्र- -याणि पै १, १८.
 सूक्ष्म-तम- -माः त्रिमा १, ७.
 सूक्ष्म-तर- -रः योशि १, ४२; -रम्
 मुं ३, १, ७; कै १, १६; नाद ३६;
 त्रिवि ७, १७; २शिंसं १२; गु
 ३६; -राः सार २२५; १२; -रान्
 अज ३, १३.
 सूक्ष्मतर-तेजस- -जसा सार
 २६४ : १४.
 सूक्ष्मतर-मणि-घटिका-
 -काम्याम् सार २५४ : २२.
 सूक्ष्मतर-मार्ग- -र्गाः सार २३५ :

१५.
 सूक्ष्म-तस(>) वृजा ३, २८.
 सूक्ष्म-त्व- -रथात् मै २, १०; वृव
 १, ४; २, ५-७; नाप ८, ६;
 योशि २, ९; गी १३, १५.
 सूक्ष्म-दर्शिन- -र्शिभिः क १, ३, १२.
 सूक्ष्म-देह-विवर्जित- -तः ते छ,
 ७३.
 सूक्ष्म-द्वार- -रम् १योट ३२.
 सूक्ष्म-नाडि- -डिपु वरा २, ६१.
 सूक्ष्म-प्र(ता)घ- -घः वृव १, ७;
 नाप ८, ९; -जम् वृव १, १२; नाप
 ८, १९.
 सूक्ष्म-बीज- -जात् योशि ३, ३.
 सूक्ष्म-भावन- -नः नाप ८, १४.
 सूक्ष्म-भुज- -भुक् वृव १, ७; नाप
 ८, ६^०; १०.
 सूक्ष्मभुक्-स्व- -स्वात् वृव १, ४.
 सूक्ष्म-मार्ग- -र्गम् मै १, २, ३.
 सूक्ष्म-युत^०- -तः रापु ४, ६१.
 सूक्ष्म-रूप- -रूपं सार २७२; १६;
 सिशि ३८३ : २; -वेण योशि २,
 १६; ६, ४९.
 सूक्ष्मरूपा(प-आ)मन्- -रमा ते
 छ, ४३.
 सूक्ष्म-लता- -ताः सार २७१ : ४.
 सूक्ष्म-लता(ता-अ)न्तर- -रे सार
 २८३; १७; -रैः सार २३४; २.
 सूक्ष्म-विद्- -विदः गी २, २३.
 सूक्ष्म-विष(य)वा- -वा योस् १,
 ४४.
 सूक्ष्मविषय-स्व- -स्वम् योस् १,
 ४५.
 सूक्ष्म-व्यवहित-विप्रकृष्ट-ज्ञान-
 -नम् योस् ३, २६.

a) 'मूतवे' इति शब्द १०, १०४, ३। b) = १पुन-। वैपरी यद्। c) = वराह-। वैपरी यद्। d) सूय^० इति
 अल्पा. संटि.। e) सु. १। f) पा. १^० क्ष्म इति घोषः द.। g) तैश्चा १०, ११, २। h) क्ष्मः इति आन.। i) दु. गप.
 वृषट ३। j) क्षिप्रगर्भम् इति धम्या.। k) क्ष्माम् इति अल्पा.। l) 'कलासूक्ष्मम्' इति आन.। m) सुसू^०
 इति निवा.। अल्पा. १. नि. शोषः द. (दु. खान.)। = इक्षार-बीजघर-। n) सवृत् स्थूलम् इति निवा.। o) क्ष्मभोगतः
 इति अल्पा.। p) पू. = इक्षार-बीजघर-।

सूक्ष्म-शरीर^० - रम् त्रिविध, १३;
वत् ४, १८.
सूक्ष्म-शरीर^० - रः पै ४, १३.
सूक्ष्म-श्रवण^० - ञोष सुप्र २.
सूक्ष्म-सूक्ष्म - क्षमायै पा १०, ५.
सूक्ष्मसूक्ष्म-तस्य (>) नाद वे ३;
३५.
सूक्ष्मसूक्ष्म-रूप - षम् सार
२८० : १८.
सूक्ष्म-स्थ - स्थः योचु ७२.
सूक्ष्म-स्वर - रम् सार २८५ : ३.
सूक्ष्म-स्वरूप-किरण - ञोः सार
२६४ : १२.
सूक्ष्मां(क्षम-अं)दा - शो वरा ४, १.
सूक्ष्मा(क्षम-अ)क्ष^० - क्षम् पै ३, १;
-ज्ञानि मं १, १, ११.
सूक्ष्मा(क्षम-अक्ष^०)क्षी - क्षी
अता ५.
सूक्ष्मा(क्षम-अ)तिसूक्ष्म - क्षमश् खे
४, १४; पु ५७.
सूक्ष्मा(क्षम-आम)भा - भा-
योशि २, १२.
सूक्ष्मा(मं-अ)वयव (>)वा - वा
गार ४०७ : ११.
सूक्ष्मा(क्षम-अ)ष्टा(ष्ट-अ)क्षर - रम्
ता २, १.
सूक्ष्म (> वि, सूचयसि मे ३, १; मैत्रि
३, १.
सूचयते प्र १, ३, ३४.
सूचक - कः प्र ३, २, ४.
सूचक-स्व - स्वान् योशि २, ११.
सूचन - नात् प्र २; नाप ३, ७८;
पम ३, २.
सूचि, ची^० - चीभिः आपं ७ : ६;

चीम् शि ६, २३६; च्या पा ७, ४
सूचिक^० - कम् शि ६, २३७.
सूचिका^० -
सूचिका-गृह -
सूचिकागृहे-तर^० - रम्
सौ ३, १.
सूचि-बन्धु च्या ६७.
सूची-यत् योचु ३८.
सूत - सू(शिरणे) द्र.
रसूत - सूतक-, सूति-, सूतिका-
सू(प्रमवे) द्र.
सूति (!वि)काग्राम (!म) - म (!म)म्
योरा १६.
सूत्र^० - प्रम् वृ ३, ७, १^३; २; आठ ३;
ससा १, २८; प्र ३, १; ४; तै २,
१४; ६, २८; नाप ३, ७७; ७८^३;
७९-८०; ८४; योशि २, ११; अक्ष
३; पम ३, १, २^३; ३-५; ८; राजा
१, १९; २ प्र ३४; ३५^३; ग ४२;
१८; शि ५, ५१; ६, २८३;
-अस्थ प्र २; नाप ३, ८०; पम ३,
४; -प्राणि वृ २, ४, १०; ४, १, २;
५, ११; मैत्रि ६, ३२; अक्ष १; लि
३ १० : ११; पु २६; १कौल ८ :
१; -त्रे म २; ष्या ६; नाप ३,
७९; योशि १, ११९; पम ३, ३;
२ प्र ३४; ३५^३; गी ७, ७; -त्रेण
छां ६, ८, २; वृ ३, ७, २^३.
सूत्र-प्रय - यम् अक्ष २.
सूत्र-दामन् - झा शि ६, १३७.
सूत्र-यन्त्र - न्त्रेण मैत्रि ६, २६.
सूत्र-वस्त्रक-वाल - लैः शि ६,
२७५.
सूत्र-विद् - विदः प्र ३, १; नाप ३,

८१; पम ३, ५.
सूत्र-संयुत - तम् शि ६, २३७.
सूत्रा(त-आ)मन् - म्मा पै २, २७;
योशि ३, १६.
सूद्र^० सूद्रकर्मणि).
सूद्र^० -
सूद्र-वत् सां ३, ६३.
सू(द्र-उ)घम - मम् महा ५, ८८.
सूनु - सू(प्रमवे) द्र.
सूनुत, ता^० - तानाम् सार २, ४५^३;
-तान्म क १, १, ८.
सूप^० - पम् १ संन्या २, ७५.
सूप-कार^० -
सूपकार-वत् सां ३, १६.
सूपमान - सू(अभियवे) द्रः
सूर^० - राः श्रे २, ५५^३.
सूरि^० - रयः श्राह ५५^३; वजा ८, ६५^३;
वृ ५, २ १५^३; मैत्रे २, २५; सुबा
६५^३; रक १४५^३; राज ७, २९५^३;
पै ४, २३५^३; त्रिता ४, १८५^३;
२ १५^३; ता ३, ९५^३; गोपू २७५^३; पा
वरा ५, ७६५^३; सु २, ७७५^३; पा
१, १०; मं ५५^३; भव ३, ४; -रिः
पा १०, २ १^३; -रिभिः योशि ६, ९.
१सूर्य, र्या^० - र्वै ई १६; वृ ५, १५,
१५^३; सूतार, ७५^३; ८५^३; -र्यैः क
२, १, ९; २, ११; १५; ३, ३; प्र १,
८; २, ५; १; सुं २, १, ५; ६; २,
१०; तै २, ८, १; छां ४, १, ७;
३; वृ १, १, १; ४, १०; ५, २३;
६, ३, ६५^३; श्रे ६, १४; मे ५, ५;
७; ८; मैत्रि ६, ५; ७; ८; १२; १४;
३७; मना १, २५^३; २, १२,
३५^३; २, ३२५^३; ३१५^३; ४४५^३;

a) क्षम.। b) वस.। c) उप. = २धवण -। d) वैपरी यद.। e) पृष. सप्तम्या अलुक्। उप. कर्तरि <सू।
f) पा। यनि. शोषः द्र.। g) यथा. वैपरी यद.। इह = १प्रद्वान् - , तन्तु - , यज्ञोपवीत - , ग्रन्थविशेष - , रचनाविशेष -
प्रच.। h) व्यु.। वैपरी यद.। i) श्र १, ३, ११। j) व्यु.। = २वयजन -। k) तैसं ४, १, १, २। °ः इति श्र १०,
१३, १; धान.। l) श्र १, २२, २०। m) सकृत् सुरिमुं इति पा.। यनि. च 'उक्कः' इति च शोषः द्र.। n) वा ४०,
१, १६। o) वि १, ५०, २। p) श्र १, ५०, ११। q) श्र १, ९०, ८। r) 'भादिष्यः' इति मा ३२, १। s) श्र ४,
५८, ४। t) तैमा १०, २५, १। u) तैसं ३, १, २।

अशि २,७; वृजा ८, ६; वृष १,
८; २, १४^१; ४, ८; १५, २८; ५,
२०; सुवा १९^१; नि ६; २१; १५
११; आषो २६; नाप २, २०; त्रिवि
७, ४४^१; राउ ४, २७; महा १,
१^१; योशि १, १३३; ५, ३३; अज
५, २९; सू ७^१; २०; २२; २५;
अक्षि १; २१३; कृह १९; म २,
१०^१; ग ६; प्रा २, १^०; च २०:
३; चा ३; १८; सूता १, ६; १५;
३०; ३१; ३, २; ६, १३; नाप १,
६; ८^१; नाउ २, १०; पा ५, ५;
सार २७२: १०; २८०: १७;
वृद्ध ३१३: १; यु ४^१; ५२; व
४३७: १७^१; ४६१: २१^१;
४६४: १७^१; २३; वप २, १;
वउ २, २; २७; ३, ४१; ४५; ४, ४;
१६; गो १५, ६; -यम् छां ३,
१७, ७^१; त्रिवि १०; रार १, ७;
योशि १, ७५; इ १८: ११; १५
३१: १८; सूता १, ६; १९; शि
५, ५२, व ४६२: ३; वउ ५, ७;
-यस्य सुं १, २, ५; ६; मना २,
१६^१; ७९^१; त्रिवि ५७; सू
२५; म २, ५; सूता ६, १४; पा
२, ९; नी २, २०^१; -यो यो १,
२१^१; सुवा ६; सौ १, ३९^१;
-यां: सूता १, ८; -यां च मैत्रि ६,
२६; ३१; सू ७; ८; १९; -यां च
वउ ३, २४; -यां च सुवा ९;
-यां च इं ११; मना २, ६७^१;
गोउ ६६; चा ९^१; सूता ४, ३;
शि ५, ५२; व ४३७: ७; -यं
प्र ५, ५; मना २, ३०^१; शां १,

७, ५२; सू २०; गोउ १५; इ
१८: २३; योसू ३, २७; -यं
नाप ५, २०; योचू ६४^१; ९५;
शां १, ७, १^१; योशि १, ९७;
सू २०; यो १, १६; ३५; इ १२:
८; अह १६९^१.
सौर-र: मै ५, २; मैत्रि ६, २;
अद्वैभा ५; -रम् मैत्रि ६, २०;
त्रिता ४, ३०; -रान् त्रिता ४,
१५; -रे त्रिता ४, ३१; -रेण
त्रिता ४, २९.
सौर-क-कै: वृजा ३, १०.
सौर-मनु-नूनि सूता ३, १.
सौर-सौम्या(म्य-आ)मेय-
सात्त्विक-कानि मैत्रि ६, ३८.
सूर्य-क-
सूर्यका(क-आ)दि-
सूर्यकादि-वत् वसू ३, २, १८.
सूर्य-कात्त-मणि-गिना सार
२३७: ४.
सूर्य-कोटि-गुति-धर-रम् त्रिभा
२, १५३^१.
सूर्य-कोटि-सम-प्रभ-अम्
त्रिभा २, १५५.
सूर्य-ग्रहण-अम् जाद ४, ४७;
-गे ग १८^१.
सूर्य-चन्द्र-मक्षत्र-प्राणि सार
२८०: २१.
सूर्य-चन्द्र-मण्डल-दर्शन-अम्
अता ९.
सूर्य-चन्द्रा(न्द्र-आ)मि-देवता-ता:
सार २७१: २३.
सूर्य-चन्द्रा(न्द्र-आ)मि-वचस-
-चंस: १५ ३५^१.

सूर्य-चन्द्रो(न्द्र-उ)पराग-कालो-
(स-उ)चित-तै: सार २३१:
१६.
सूर्य-द्वार-रेण सुं १, २, ११.
सूर्य-नाडी-दी सौ ३, १; -ख्या
योशि ४, ९१.
सूर्य-नारायण-ण: त्रिवि १, ११.
सूर्य-निभ-अम् मं ४, १, ३.
सूर्य-पूत-त: अशि ७, ३; च २१:
९; वृद्ध ३१८: ५.
सूर्य-भक्त-क्त: सूता २, ५.
सूर्य-भेद-अम् योशि १, ८८;
९२^१; यो १, २६.
सूर्य-मण्डल-अम् मैत्रि ६, ३०;
मं २, १, ५; १५ ३१: ११;
-ले सार २३५: ३.
सूर्यमण्डल-मध्य-अये त्रिवि ७^१.
सूर्यमण्डल-मुष्टिक-क मरु ७.
सूर्यमण्डल(ल-आ)कृति-वि:
प्रा २, १.
सूर्यमण्डल(ल-आ)न्तर-गत-
त: त्रिवि १, ११.
सूर्यमण्डलान्तर्गता(त-आ)-
नन्त-दिश्य-चारणारविन्दा-
(न्द्र-आ)कृष्ट-निर्गत-निरतिश-
यानन्दमयामृतनदी-प्रवाह-
अम् त्रिवि ५, १२^१.
सूर्य-मरीचि-
सूर्यमरीचि-वत् २ योत २, २.
सूर्य-रदिम-दिम: २ शिसं ११.
सूर्यरदिम-वत् शि ५, ४१.
सूर्य-राज्य-अम् मैत्रि ६, ३६.
सूर्य-रूप-प: योशि ५, ३२; सार
२६४: १३.

a) तैआ ८, ८, ११। b) अ १०, ९०, १३। c) तैआ १०, १५, १। d) अ १, ११५, १। e) ०यांमि: इति
अम्पा। f) अ ८, १८, ९। g) तैआ ४, ३९, १। h) मा २०, २१। i) तैआआ १०, १६। j) तैआ १०, ६३, १।
k) मा १३, ८। l) = बुधमक्षत्राणांयाममेद-। m) = देवीविशेष-। n) तैआआ १०, ६७। o) तैआ १०, २५, १।
p) ०यसम ० इति अम्पा। q) तैआ १, ३७, २। r) उप. = १मनु-। s) ०तिरयम् इति निसा। t) ०हे इति निसा।
u) ०बोधचन्द्रामिर्ग्यकम् इति निसा। ०बोध चन्द्रामिर्ग्ययो: इति आन.। v) ०लम् इति आन.। w) ०मयापर
इति निगा, ०लान्तम् इति अम्पा. गंदि.।

सूर्यरूपि(न्)णी-णी अता
 ५; योशि ६, ९.
 सूर्य-लोक-कम् म २, २५
 सूर्यलोक-काम-म: म २, २५.
 सूर्या(यै-आ)लोक-परिस्पन्द-
 शान्ति-न्तौ शां १, ७, २६.
 सूर्य-वंश-
 सूर्यवंशित्-
 सूर्यवंशी(शिरा)-कमल-
 -लाति सार २६७ : २०.
 सूर्य-वर्ष-स-वर्षि श्रव्य ६.
 सूर्यवर्ष-विन्-न्वी ग १८.
 सूर्य-संसद-सदम् सूता ६, १५;
 १५.
 सूर्य-संका(श)शा-शा प्रविश १०;
 १ प्र ३१ : १८।^७
 सूर्य-सम-म: व ५, २२.
 सूर्य-समन्वित-तम् ध्या ९०.
 सूर्य-सहस्र-सहस्य गी ११, १२.
 सूर्य-सोम-मण्डल-ले त्रिवि ५,
 १२.
 सूर्य-सोमा(म-अ)मि-परमेधर-रा:
 योशि ६, १०.
 सूर्या(यै-अं)दा-दोन योचू ६७.
 सूर्या(यै-आ)कात-तम् मं १, २,
 १३; ४, १, २; ३; अता ७.
 सूर्या(यै-अ)क्षय(चि-अ)प्यात्म-
 कुण्डिका^{११}-का मु १, १, ३६.
 सूर्या(यै-अ)मि-वाक्-चन्द्र-तैजस-
 -जसा गौ ५४.
 सूर्या-चन्द्रमस-मसो: मना २,
 ८०; योचू ९८; शां १, ७, १;
 योशि १, ६८; ११३; त्रिता १, ५२;
 -मसौ छां ७, १२, १; ८, १, ३; वृ
 ३, ८, ९; मना १, १४५; वृजा ६,
 १२; वृ ५, ८; त्रिता २, ६८;

गोपू १२; पित्र १, १३; ५१.
 १सूर्याचन्द्रमस-क-केन त्रिता
 १, ६६.
 २सूर्या-चन्द्रम(स्क)स्का-स्का
 त्रिता २, २४.
 सूर्या(यै-आ)रमक-
 सूर्यात्मक-त्व-त्वम् आपू ४.
 सूर्या(यै-आ)रमन्-रमा वृजा २, २;
 योशि ५, १९.
 सूर्या(यै-अ)यवोद्भिस्-रसम् सूरि.
 सूर्या(यै-अ)दि-दय: ह ९; सूता
 ५, ६१.
 सूर्यादि-सकल-सुवन-प्रका-
 शि(न्)नी-नी सी १४.
 सूर्या(यै-अ)धस(>) त्रिता १, ४०.
 सूर्या(यै-अ)न्त-न्ता: १संन्या २, २२
 सूर्या(यै-अ)म-मा-मा मं १,
 २, ६.
 सूर्या(यै-अ)मिसुल-त्व: सू २७;
 २९.
 सूर्या(यै-अ)युत-प्रमा-दीप्त-सै:
 शि ६, २१४.
 सूर्ये(यै-अ)न्दु-गुरु-दीपादि-नो-मा-
 हण-समीप-
 सूर्येन्दुगुरुदीपादिमोत्राहण-
 समीप-सस(>) सार ४, ४.
 सूर्ये(यै-अ)न्दु-वह्नि-मण्डल-
 -लाति त्रिवि ७, १३; २७.
 सूर्ये(यै-अ)न्दु-अ)मि-कला-
 स्वरूप-
 सूर्येन्द्रमि कलास्वरूप-त्व-त्वेन
 पत्र २.
 सूर्ये(यै-अ)पत्स्थान^{१२}-नम् नाप ४,
 ३८.
 २सूर्ये-
 सौर्ये-
 सौर्याप(शि)^{१३}णी-णी प्र

१, १; ४, १.
 √सृ
 सरण-णम् छां १, ३, ५.
 सरणि-ण्या सार २५० : १७.
 सृति-ति: वृ ४, २, ३; -ती वृ ६,
 २, २५; वरा ४, ३६; गी ८, २७;
 -ती: भव १, ५; -स्यै गोपू २९.
 सृयु(ति-उ)पक्रम-माव् अस्
 ४, २, ७.
 सृद्धा^{१४}-द्धाम् क १, १, १६; २, ३.
 √सृज् > सिसृक्ष, सृजते मुं १, १, ७;
 छां ७, ११, १; वृ १, १५; ४, ३,
 १०; वे ४, ९; म ३, ११; त्रिता १,
 १७; इ १२: १९; गु ५४; सृजति
 प्र १; वृ २, ८; ९; ३, २; ते ५,
 ८८; शां २, १; त्रिता ४, ९;
 गु २६; वपू २, २; गी ५, १४;
 सृजन्ति प्र १^{१५}; सृजसि व ३,
 ६०; सृजामि गी ४, ७; सृजत
 त्रिता ३, २; सृजे ऐ १, १; ३;
 ३, १; सृजानि पाशु १, १; अ-
 सृजत प्र ६, ४; ऐ १, २; तै २, ६,
 १; छां ६, २, ३^{१६}; वृ १, २, ४; ५;
 ४, ४; ६^{१७}; १२; १३; मैत्रि २, ६;
 वपू १, २; वपू १, २; ४; असृजत्
 मै २, ६; मैत्रि ७, १; सुवा १^{१८};
 २^{१९}; वै १, २, २-२४; २५^{२०}; २, ९;
 १२; १३; १६; व १; श्लो ६९;
 १२^{२१}; असृजत् छां ६, २, ४; वृ
 ५, ५, १; मना २, ७९; वृ
 १, १४^{२२}; असृज् सुवा १; अ-
 सृजम् गोपू २५^{२३}; सृजेव वृजा ३,
 ५; सार ३, १८; सृजेव ना १; रं
 २; सृजेव वृजा १, १; वपू १.
 १; अभ्य ६; गोप ६९: १०;
 सृजेम त्रिता ३, १^{२४}.

a) पा. १ यति. दौष: ह. । b) पा. १ आ: इति दौष: ह. । c) उप. = १धम- । d) तैमा १०, (१५, १ ।
 e) प्र १०, १९०, ३ । f) ०यैद्वे इति पा. १ यति. दौष: ह. । g) सृज्. १ = गोत्रप्रवर्गकथ्यपिरोष- । h) दान्दो
 रोष: (श्र. शं.) । i) 'सृष्टि' इति प्र १०, ८८, १५ । j) सृज्. १ = माला- । k) 'सृज्यते' इति निवा. । l) 'असृज्य'
 इति शात. । m) तैमा १०, ६३, १ । n) 'असृज्य' इति निवा. । o) ०ज्यम् इति चव्यः ।

ससृजे वृ १, ५, २१; ६, ४, २;
 २२ ३२:१; असृक्षि वृ १, ४, ५.
 सर्गा^१ - नः सांघा २१; २४;
 ५२-५४; गी ५, १९; गंस्य साका
 ६६; -र्षाणाम् गी १०, ३२; -र्षो
 सर ३, २३; गी ७, २७; १४, २;
 -र्षेषु क २, ३, ४.
 सर्ग-कारण- -णम् त्रिता २, ६.
 सर्ग-परंपरा- -राः वरा ३, २२.
 सर्ग-भ्रष्टन्- -क्षणाः सर ३, २१.
 सर्ग-वृन्द- -न्दानि महा ५,
 १६१.
 सर्ग-सामर्थ्य- -र्थ्यम् द २०.
 सर्ग-स्वर्गा(र्ष-श्र)पवर्ग-हेतु-
 -तुः मैत्रि ६, ३०.
 सर्गा(र्ष-श्र)दि- -दौ महा ४,
 ५५; शु ३१; ७८.
 सर्गादि-रक्षण- -णाय पा ३, ४.
 सर्गा(र्ष-श्र)दि-काल- -ले द
 २०.
 सिद्धक्षय- -क्षयः गोपू २५.
 सिद्धसमाप्त- -प्तः अभ्य ५.
 सृजमान(न>)ना- -नाम् श्रेष्ठ, ५९^b.
 सृज(ज>)जा- -जानाम् वपू १, १.
 सृजमान- -ने गी ३, २३.
 सृष्ट, ष्टा- -ष्टः २२ ३२:१; सार
 २४६:५; -ष्टम् ऐ ३, ३; वृपू २,
 ३५; मर ३, १२; पा ६, २; शु
 ४३; वपू २, ३; भव २, ३; गी ४,
 १३; -ष्टाः ऐ २, १; अव्य ६; वपू
 १, ३; -ष्टानि वृ १, ५, २१; गी १,
 २५.
 सृष्टवृ- -वृत् वृ ४, ११.
 सृष्टि^१ - -ष्टये गोपू २५; -ष्टिः वृ १,
 ४, ५^१; गी १, ७-९; २, २८; ३,
 १५; महा ४, ७३; मोरि ६, २^१;
 वरा २, ५४; गी १, १; मारू १,

१८; सार २२०:१; १६; २२१:
 २३^१; २२२:१; २४५:१८; २१;
 २५७:६; २६०:११; २७८:
 १६; २८३:४; २८९:१४; वज
 ३, ४७; सांस् २, ९^१; ३, ४७; ६,
 ४०; ४३; अस् ३, २, १; -ष्टिम्
 मुद्र २; सार २२०:१८; २२१:
 २२; २२४:१०; वज ३, १९;
 २१; २५; ४५; -ष्टेः शु ३, ५; ते
 ५, ५१; मुद्र १, ९; पै १, १८;
 अव्य ३; सार २८९:२; सांस् २,
 ११; -ष्टौ गी १, ८; योचू ७२; सार
 २८२:१८; -ष्टयाम् वृ १, ४, ५.
 सृष्टि-कर्तृ- -र्तृभिः सार २३५:
 १६.
 सृष्टि-कर्मन्- -र्मं मुद्र २.
 सृष्टि-काल- -लात् सांश
 ३८२:६.
 सृष्टि-चिन्तक- -काः गी १, ७.
 सृष्टि-निमित्त- -त्ताय पा १०, ४.
 सृष्टि-निवृत्ति- -त्तिः सांस् ३,
 ६३^d.
 सृष्टि-पर्यन्त- -न्तम् गोव ३०^a.
 सृष्टि-मणव- -वः नाप ८, १.
 सृष्टि-यज्ञ- -ज्ञः मुद्र १, ६; ७;
 -यज्ञम् मुद्र २.
 सृष्टि-योग- -योगं त्रिता २, ४७.
 सृष्टि-रूप-गुण- -दायिन्-
 -यिने सार २७७:११.
 सृष्टि-रूप(प>)पा- -पा नापू २, ७.
 सृष्टि-लय- -यो वरा ५, ७५.
 सृष्टि-लिङ्गक- -कम् वज ४, ३७.
 सृष्टि-विद्- -विद्ः गी २, २८.
 सृष्टि-वैचित्र्य- -त्र्यम् सांस् ६,
 ४१.
 सृष्टि-समुपपन्न- -न्नाभ्याम् सार
 २४७:१७.

सृष्टि-स्थिति-ल्य^१- -ल्यस्य रापू
 २, ११^१; -न्यान् सार २५८:१४;
 -न्यानाम् पै १, ८.
 सृष्टिस्थितिलय-कारण-
 -णम् नि १.
 सृष्टिस्थितिलया(य-श्र)दि-
 -दीनाम् पं १२.
 सृष्टि-स्थिति-संहार-कर्तृ- -र्ता
 पी ४२२:१७.
 सृष्टि-स्थित्य(ति-श्र)न्त-करण-
 -णात् भव २, ५५.
 सृष्टि-स्थित्य(ति-श्र)न्त-कृत-
 -कृत पै २, १.
 सृष्टया(धि-श्र)तिरि(क>)का-
 -का सार २७८:१६.
 सृष्टया(धि-श्र)दि- -दौ ग १३;
 सार २५५:२०; २५७:१४;
 २८५:१३; २८९:१५.
 सृष्टयु(धि-उ)त्पन्न- -न्नाः सार
 २५१:४.
 सृष्ट्वा ते २, ६, १; वृ ६, ४, २; श्रे
 ५, ३; वृ ९, ८; नि १५; श ८;
 त्रिभा १, २^b; मुद्र २; शु ६४; गी
 ३, १०.
 सृति- √सृ ऋ.
 √सृप्, सर्पति सांस् ५, १०७; सर्पन्ति
 छां १, १२, ४; सर्पेत् सि ७, १६.
 सर्पा^१ - -र्षः आषो २९; मुद्र ३; वरा
 २, ६७; -र्वम् नाद २६; -र्षाः छां
 २, २१, १; मुद्र ३; वज २५;
 -र्षाणाम् गी १०, २८; -र्षान् वज
 २५; -र्वस्यः नी २, १८९^१; १९९^१;
 २१९^१; ९^१; ४४३:५; ६; ४४८:
 १३; १४; ४५२:१७; १८.
 सर्पा^१ -
 सर्पा(र्व-श्र)द्य- -द्यम्
 मैत्रि ६, १४.

a) 'क्षा इति ध्यान. । b) 'जनपत्नीम्' इति तैष्वा १०, १०, १ । c) 'ष्टेः इत्यपि पाठे. । d) 'निर्द्ध' इत्यपि पाठे. । e) 'भारू' इति ध्यान. । f) इय. । g) वा. ? [निद्र उत्र. (धन्या)] क्व. इति. । h) 'हृष्ट्वा' इति निष्ठा, चन्द्रा. मंत्रि. । i) वा. कर्षः? का १ वद. । j) मा १३, १ । k) मा १३, ८ । l) =साधेया-नपुत्र- ।

सर्व-कुटिला(ल-आ)कार- -रम्
सौ ३, १.
सर्व-ग्रह- -हः योशि ४, १.
सर्व-जन्मन्- -न्मनाम् त्रिधा
२, ५७.
सर्व-स्व- -स्वेन योशि ४, २२.
सर्व-देव-जन-विद्या- -द्या छां
७, १, १०; -द्याम् छां ७, १, २, २,
१:७, १.
सर्व-धारा(रा-आ)दि- -दिभिः
गौ २, १७.
सर्व-निर्माक- -कः वरा २, ६७.
सर्व-भ्रान्ति- -न्तिः नि २९.
सर्व-राक्षस-गन्धर्व- -र्वे सुधा
६३.
सर्व-राज-चोर-बुद्ध-मृगा-
(ग-आ)दि-पकल- -भव-
-यम् व ४२८: ३.
सर्व-रूप- -यम् नाद २७.
सर्व-वय् शां १, ७, ३७; साम् ४,
१२.
सर्व-विद्- -विदः मुद्र ३.
सर्पा(प-आ)दि- -दौ आबो १२
सर्पा(र्व-आ)भास-विभिर्गम-
-मो १आ २७.
सर्पा(र्व-उ)द्विक-काक-कपोत-
द्विक-द्वेष्ट(ष्ट-आ)भि-विष-
-यम् व ४६५: ७.
सर्पि-
सर्पि-वत् २योत १, ८.
सर्पि(र्)णी- -नी योशि ४, ७.
सर्पिस्त- -र्वि छां ४, १५, १; ६,
६, १; ४ १, १५; १६; मैत्रि ६,

२६; व ३, १०; १७; त्रिवि १७;
इ १५: ६; -र्विषः इ १८: ९;
-र्विषा वृ ६, ५, १२.
सर्पिष्-पायस-कर्द(म>)मा-
माः इ १०: १०.
सर्पिष्-मत्- -मन्तम् वृ ६, ५,
१४-१८.
सृष्ट, सा- -सः छां ८, ६, ३; वृ ३, १,
२२; -साः छां ८, ६, २.
सृष्ट- -रः वा २१.
सृष्ट-, सृष्टवत्-, सृष्टि-, सृष्ट्वा
√सृज् द.
सेचन-, सेवयत्- √सिच् द.
से(स-इ)तिहा, स- -साः वृ ४, १५,
१३; म २, २६.
से(स-इ)तिहा, स-पुराण- -णाः राउ
४, ६.
१-सेसु- √सि द.
सेदि^क- -दिः व ४४३: ००६.
से(ग>)ना^न- -नयोः गौ १, २१; २४;
२७; २, १०; -ना वृ २, १, ६; कौ
४, ७; -नाः वृ २, ८७.
सेन्य- -न्यस्य गौ १, ७.
सेना(ना-आ)दि-कल्पना- -ना राष्ट्र
१, १०.
सेना-नी- -नीः व ४६७: १५७.
-नीनाम् गौ १०, २४; -न्यः शौ
५१: १०१; ५२: १६; ५३: ६.
सेना-स्वम- -मम् पी ४२२: ३.
से(स-इ)न्द्र- -न्द्राः इ १३: २.
से(स-इ)न्द्र(य>)या- -याम् त्रिता
१, ७.
√सेव्, >वि, सेवते १योत २२;
अत्रि ५; ६; जाद ४, ५८; शा
२७; सार २२४: ७; ९; २२५:
२१; २५३: २१; २६४: ११;

२६९: ४; गौ १४, २६; सेवन्ते
त्रिवि ८, १०; सार २२४: १;
२५६: १; २६६: २०; २६९:
१८; २७३: २३; २८३: १२;
सेवे सार २७८: ३; सेवामहे
त्रिता ४, ६; सेवेत व ४६५: १२;
भव ३, १६.
सेवयेत् योशि १, ८०.
सेवक- -काः सार २३१: १२;
२५९: १६; -कानाम् राष्ट्र
६५.
सेवन- -नात् वृत्त ७०: ६.
सेवमान, ना- -नाः नाप ४, ७; १ संख्या
२, ८९; सार २२४: ६; २२७: ८;
२२८: ९; २३१: ६; २६४:
१३; २८०: १९; २८३: ८; -न्यम्
सार २२४: १९; -ना सार २२४:
३; २८६: ६; -नाम् सार २२३:
२९; २२४: ३; १०-१२; १५;
१८; २२; २२८: २; २२९: १७;
२३३: ७; २३४: ७; ९; २१;
२३८: १३; २४२: २३; २४३:
१२; २६४: १४; २६८: २२;
२६९: ३; १७; २८२: १३.
सेवा- -वया गौ ४, ३४; -वा ते ४,
१३; शा १४; भव ५, १९; -वाः
सार २३६: १५; १६; -वामिः नाप
६, १८; -वायाम् सार २३६: १४;
शि ७, ११९.
सेवा-क्या- -यायाम् सार
२२७: १२; २३१: ९.
सेवा-पर- -नाय मु १, १, ४९.
सेवा(श-अ)थे- -थे सार २६३:
२३.
सेवा-विधि- -धियम् सार २३६:
५१.

a) ०वेदे इति अग्न्या, संदि. । b) ०वेदे इति निशा. । c) सयाहारे द्वय. । d) सर्वा इति निशा, संदि. ।
e) या. । f) =सर्पि- । g) पा, अर्थः । h) वे ११ यद. । i) द्यु. = १युविशेष- (नृ. वाटी.) । j) =दम । k) द्यु. =
अग्निदन्विशेष- । वे ११ यद. । l) सैवा ४, २३, १ । m) अ २, ३३, ११ । n) अ १०, ८४, २ । o) ०ग्याः इति
पा. यनि शोधः द. । p) ०वाय् इति पा. यनि. शोधः द. ।

सेवित-सः योच् ११८; महा ५,
७१; शां १,७,६; -सम् वृप् १,
३; योच् १; गोठ ५१; सार
२२५: १९; २२८: १; २३०:
२१; २३८: ८; २७०: ३; वपु
१,६.

सेवितव्य-व्यः भव ५, ११;
-व्यानि तै १, ११, २.

सेव्य-व्यः तै १, २७; सु २९४:
१६; -व्यम् द१०; पं१३; -व्याः
स्व ६२: ३; सार २३६: १७;
२५०: ८.

सेव्य-रूप-पाः सार २५३:
२३.

सेव्यमान,जा-नः द ८; सार
२६९: ५; -नम् ग४ ५; सार
२२९: १८; -ना सार २२८: ५;
२६९: ८; -नाः सार २२३:
१०; २२५: १३; २३७: ३;
२८३: २३; २८५: २१; -नाम् कै
१, १.

सैकत-सिकता-द्र.

सैतव-सि द्र.

सैन्धव-सिन्धु-द्र.

सैन्धव-वः मैत्रि६, ३५; -वम् कौ
२, १४; शां १, ७, २१; योशि १,
१६३; वरा २, ७५; शि ६, ७६.

सैन्धव-खिल्य-व्यः वृ २, ५, १२.

सैन्धव-घन-मः वृ ४, ५, १३.

सैन्धव-प(व्य>)व्या-ध्याभ्याम्
यो २, ३०.

सैन्धव-पिण्ड-

सैन्धवपिण्ड-वत् त्रिमा२, ११४;

२अव ३३८: ६.

सैन्य-सेना-द्र.

सौ(सं-अं)कार-रेण अच् ४.

सोढव्य-सोढम् ✓सह द्र.

सो(सं-उ)त्क(ठ>)ण्ठा^{१०}-ण्ठा

सार २८२: ८.

सो(सं-उ)त्साह,हा-हम् सार

२७८: १७; -ऽ^{१०}हा सार २६३:

४; २७२: ३; २८२: ८; -न्हा:

सार २६९: १७.

सो(सं-उ)त्क-कैः वि २०.

सो(सं-उ)द्या(य-अ)स्तमय-वेपु

महा २, ५९.

सो(सं-उ)पकरण-णम् शि ६, २०४

सो(सं-उ)पक्रम-मम् योच् ३, २२.

सो(सं-उ)पनयन-नात् आर ५.

सो(सं-उ)पनिपद्-पद्: म २, २६.

सो(सं-उ)पलम्भ-म्भम् गौ४, ८७.

सो(सं-उ)पवी(त>)ता-ताम् नाप

३, १७.

सो(सं-उ)पाधिक-कः त्रिवि २, २; ३

सोपाधिक-साकार-रः त्रिवि

२, ३, ५.

सोपान-

सोपान-परंपरा-रा सार २७१:

१३-१५; २२; २७२: ५; ६.

सो(सं-उ)पातक-कः शि ७, ८७.

सोमरि^{१०}-

सौमर-रः-राप् वृ २, ६, ३; ४,

६, ३.

१सोम,मत्-मम् वृ २, १, १५; मना

२, ३८^{१०}; कौ ४, १८; ए १३^{१०};

५१^{१०}; लि ३०९: ८^{१०}; व ४३७:

८^{१०}; -मः सुं २, १, ६; छा ५,

४, २; १०, ४; वृ १, ४, ६^{१०}; ११;

२, १, ३, ३, ९, २, ३; ६, २, ९; खे

२, ६; मैत्रि ६, १०; ३५; ३८;

७, २; मैत्रि ३, ३; मना १, ९^{१०};

१५^{१०}; २, १२, १^{१०}; २, ४^{१०};

अशि २, ७; कौ २, ९, ४, ३; वृजा

२, १, ५^{१०}; ८; ४, १६^{१०}; वृष्ट १,

८; ४, १५, २९; सी ४; राठ ४,

२८; महा १, १; रुह ५; १९;

म २, ५; ६; ११; २२ ३६: ६;

११; वट ३१३: १०; व ४४१:

२०^{१०}; ४४२: २०^{१०}; ४४७:

३^{१०}; ४४८: ३^{१०}; ४५१: १६^{१०};

१७^{१०}; ४५२: १०^{१०}; ४५४:

२२^{१०}; वपु २, १; वठ ३, ४१;

गी १५, १३; -मम् छां ५, ५, २;

वृ६, २, १०; १६; मना१, ११^{१०};

२, १^{१०}; ३८^{१०}; ३९^{१०}; ४०^{१०};

अशि ३, ४^{१०}; वृजा ८, २; वृष्ट

५, १४; ५^{१०}त्रिता २, १; ३; ५^{१०};

७; १९; २०; २२; २६; २८; दे

१९^{१०}; ६११: ८; च २१: १८^{१०};

वट ३१५: ३^{१०}; व ४३०: ६^{१०};

४४०: १९^{१०}; ४४५: ७^{१०};

४५०: १०^{१०}; ४४३: १९^{१०};

४६१: ६^{१०}; -मस्व छां २, २२,

१; मना२, १६^{१०}; पा२, १; अरु

१६६^{१०}; -मा सौ५; -मात् सुं २, १,

५; -माय वृ६, ३; ६^{१०}१; त्रिवि

७, ४७; म १, ३; ६; व ४३७:

९; -मे मैत्रि ६, २४; -मेव छां

३, ९, १; ३; वृजा २, १२.

a) ०वितः इति निशा. संटि.। b) =सखीविशेष-। c) व्यु. = १लवण-। d) उप. =हरीतकी-।
e) =६पा। f) ०कः सां इति निशा.। g) व्यु. =निश्रेणि-। h) व्यु. =गोत्रप्रवर्तकश्रुतिविशेष-। i) वप्रा. (=विप.
वा माप. वा) वैप१ यद्र.। j) तैच्चा १०, ४८, १^{१०}। k) ०मे इति पा.। यनि. सोधः द्र. (द्र. अन्धा. संटि., वैपु. उन्न. स १
द्रि.)। l) श्र १०, ५७, ६। m) श्र १, ९१, १६। n) श्र १०, ८९, ५। o) श्र ९, ९७, ४०। p) श्र ९, ९६, ६।
q) ०म इति निशा.। यनि. सोधः द्र.। r) =वपुविशेष-। s) श्र १, ९१, २०। t) श्र १, ९१, २०। u) श्र ३, ४७, २।
v) श्र १, ९९, १। w) तैच्चा १०, ४८, १। x) तैच्चा १०, ४९, १। y) तैच्चा १०, ५०, १। z) श्र ८, ४८, ३।
a') श्र १०, १२५, २। b') श्र १०, १४, १३। c') तैच्चा १०, १६। d') तैच्चा १, २७, २।

१सोम्य,म्या- -म्यम् मैत्रि ६,
१४; अशि ३, ६; ७; वृजा २, ६,
च २१:२०; २१; वटु ३१:५:६;
गार ४०७: ५; म्या शां १,
४५¹⁰; -म्याम् सुवा २¹⁰; -म्ये
हं ८; त्रिभा २, ११९; सूता ४,
४; म्येन अशि ३, ७; च २१:
२१; वटु ३१५: ६.

सोम-प्रहण- -णम् जाद ४, ४६.

सोम-दत्त-

सौमदत्ति^८ -त्ति: गी १, ८.

सोम-देवत- -तः वृ ३, १, २३.

सोम-प- -पा: दे १०; गी २, २०.

सोम-पाल- -नम् मना २, ८०^{१०}.

सोम-पूत- -तः अशि ७, ३; वृ ५,
१२; राच ५, ४; महा ६, ८३; च
२१: ९; वटु ३१८: ५.

सोम-मण्य- -ण्ये मैत्रि ६, ३८.

सोम-व्यामिन्- -जी हंपो १८.

सोम-ना(जन्)>जी- -जी: प्रा १,
१^१, १^०.

सोम-राज्य- -ज्यम् मैत्रि ६, ३६.

सोम-रूप-कला- -ला ते १, ५^१.

सोम-लोक- -कः अ १^६; वृ २,
९; वृ ३, ५; -कम् २ ५, ४; -के
प्र ५, ४; नाद १४.

सोमलोक-ज्ञान- -नम् शां १,
७, ५२.

सोम-वंश-

सोमवंशिन्-

सोमवंशी(शि^b)-कमल-

-कानि सार २६७: २०.

सोम-संज्ञ- -ज्ञः मैत्रि ६, १०.

सोम-सवन- -नः छां ८, ५, ३.

सोम-सूर्य-दि- -द्वयोः शां १, ७, ४२.

सोम-सूर्य(यै-श)मि-

सोमसूर्यमि-नेजम्- -जसः १२

३१: १४.

सोमसूर्यमि-देव(त)>ता-

-ता: प्या ५४; योचू २२; ८५.

सोमसूर्यमि-नघन- -नम् भ

१, १; २, २९.

सोमसूर्यमि-नेत्र- -त्रः श १२.

सोमसूर्यमि-रूप(प)>पा- -पा

सी १२.

सोमसूर्यमिरूपिन्- -पिणः

त्रि ८^१.

सोमसूर्यमि-संबन्ध- -न्धाव

वरा ५, ६३^१.

सोम-सूर्य(यै-श)मि-नवायु- -नवः

योशि ३, ११.

सोमा(म-श्र)श-नवक- -कम् यो

२, १८.

सोमा(म-श्र)शु- -शवः कौ १, ५.

सोमा(म-श्र)रमक- -कः योशि ५,

२९.

सोमात्मिका- -का सी १३.

सोमा(म-श्र)मन्- -न्मा वृजा २, २.

सोमा-पुषन्- -पुषणा लिं ३१०: २१^१.

सोमा-रुद्र- -रुद्रा लिं ३१०: ११^{१०}.

सोमा(म-श्र)की(कै-श)मि-नेत्र-

-त्रम् वट ४, ३३.

सोमा(म-श्र)धै- -धारिन्- -रिणम्

राट २, ३३.

सोमा(म-श्र)वतं(मक)>सिका-

-काम् राटं २, ३२.

सोमे(म-इ)न-कण्ड- -ण्डम् वट ४,

३५^१.

सोमै(म-ए)क-पायिन्- -यिनाम्

शु १५.

सोम्य- -म्य प्र ४, ७: १०: ११; ६,

२; सुं २, १, १: १०: २, २: ३; छां

४, ४, ४: ५^१; ५, १: २: ९-८, ३^१;

९, २; १४, १; २^१; ३; ६, १, १; २;

४; ५; ६^१; ७; २, १; २^१; ३, ४;

४, ७; ५, ५^१; ६, १-४; ५^१; ७, १;

२; ३^१; ५^१; ६^१; ८, १^१; ३^१; ५^१; ६^१;

७; ९, १; २; ४; १०, १-३; ११;

१-३; १२, २^१; ३^१; १३, २; ३;

१४-१५, १; ३; १६, १; वृ ३, १,

२; २, १३; ते ५, ९७; पै १, २;

शा १८; २६; गिं १, ७; ८; २, २;

४, २; ५^१; ६, २; ८; ६; १-३; २०.

२सोम्य,म्या- -म्य-अव्य १;

शा ११; ३०; ३३; सु २, ९, १५;

-म्य: निह १, ८^१; १योत १००;

नाय ४, ३८; १संन्या २, ९; गी

११, ५१; -म्या अक्ष ५, ८५;

-म्या: मना २, ६४^{१०}; -म्या:

छाग २४; २१; २५: १०; -म्याम्

दे १५; शि ६; ११६; -म्येन हना

१, १४^१.

सौम्य-गुण-

सौम्यगुण-स्व- -स्वान्

गर्भं २^१.

सौम्य-तनु- -नुम् गो ३४९.

सौम्य-ता- -ता महा ६, २९.

सौम्य-स्व- -स्वम् गी १७,

१६.

सौम्य-भैरव-रूप- -यागि

शि ६, १२४.

सौम्य-व(कत्र)>त्रा- . .

-त्राम् शि ६, ११९.

सौम्य-वपुस- -पुः गी ११,

५०.

सौम्य-समाचार- -रः महा

४, ३५.

२सो(सं-उमा)>म- -मम् शि ६,

१५१.

a) =नारीविशेष-। b) अर्षः। c) उप. <√पा(पाने)। d) तैशा १०, १४, १। e) शी ६, १६, १।
f) 'म्योमरूपम्' इति श्रान्। g) 'सुसमकारः' इति श्रान्। h) पा. १ मनि. दोषः दः। i) 'मित्तेजसः' इति श्रान्।
j) हेम...धम् इति श्रव्या. संति.। k) =भं-भोजार-। l) श्र २, ४०, १। m) श्र ६, ५४, १। n) 'नयण्ट'
इति संति.। o) पा. १। p) तैशा १०, १४। q) सां इति श्रव्या. संति.। r) परस्पररसोयुं इति श्रव्या.। s) =६मा।

सोमदत्त- १सोम- द.
 सोमन्- मानम् मना १, ११५^b.
 सोमसूर्यपुरस्तात्^o अशि ३, ५;
 वट्ट ३१५: ५.
 सोमसूर्यपूर्वजगदधीतम्^o च
 २१: २०.
 सोम्य- १सोम- द.
 सोल्य- इत्यनेन टि. द.
 सो(स-ठ)ष्णी(प>)पा- पाम् शि
 ६, १६२.
 सोम्यत्- √छु(प्रसवे) द.
 सोहम् २स द.
 सो¹ अश १, ८¹; लां २१३: ३; व
 ४३२: ५.
 सो¹ शु २, ५; शिता ४, ३४; दत्ता
 १, ६¹; सर २, ५¹; नापू ५, १०;
 पाया ५; आय ३२५: १६; व
 ४२८: ७; सो¹: सो¹: वृ. ट.
 सोकर- सुकर- द.
 सोकरायण^{1b} - ण्य- णाल वृ४, ६, २.
 सोह्यम्- सुह्य- द.
 सोप्य- सुल- द.
 सोदामि(मन्त्री- २सुदामन्- द.
 सोन्दर्य- सुन्दर- द.
 सोयाल- सुयाल- द.
 सोमग- सुमग- द.
 सोमद्र- सुमद्र- द.
 सोमर- सोमरि- द.
 सोभाग्य- सुभाग- द.
 सोमदत्ति- १सोम- द.
 सोमन्तधी- सुमन्तु- द.
 सोमिन्नि- २सुमिन्नि- द.
 १-२सोम्य- १सोम- द.

सौर- १सूर्य- द.
 शसौर्य- २सूर्य- द.
 शसौर्य>)यो¹ - योम् गोट ३; ४.
 सौर्यायणी- २सूर्य- द.
 सौलभ- सुलभ- द.
 सौवर- √सृष्ट द.
 सौवर्ण- सुवर्ण- द.
 सौपुत- सुपुति- द.
 सौष्ठव- सुष्ठु द.
 सौहित्य- सुहित- द.
 √स्कन्द, स्कन्दति वृ ६, ४, ४.
 अस्कान्त्सीवृ वृ ६, ४, ५¹.
 स्कन्द¹ - न्द: छां ७, २६, २¹;
 अशि २, ३; शि २, ५; सिशि
 ३८०: २; ३८३: १२; सि १,
 २; वपू २, ४; गी १०, २४; न्दम्
 सुभा ४; सु १, १, ३४५¹; न्दाय
 वृजा ४, २९; शि ६, २०९.
 स्कन्द-नन्दि- न्दिन्वाम् शि
 १, ५.
 स्कन्द-मावृ- तरम् दे ६.
 स्कन्दा(न्-अ)प्रगण्य- ण्य: हे
 १२.
 स्कन्ध¹ - ण्यम्, ण्धाव मैत्रि ७,
 ११; ण्धे रुजा १, १६.
 स्कन्ध-पार्श्व¹ - ष्वेयु शा १, ४१¹.
 √स्कम्भ, अस्कभावत् नापू ४,
 ५¹.
 स्कम्भ- ण्य: वृ ११¹.
 √स्वल्ल, स्वल्लन्ति आर्षे ७: १८.
 √स्तम्भ>नि, स्तम्भवति छां २, ३, १;
 १५, १; ७, ११, १; वृ १, १, १;
 मे ५, ५; स्तम्भवन्ति आर्षे ७: २.

स्तनविरसु¹ - रसु: छां ८, १२, २; वृ
 २, ५, ९; ३, ९, ६¹; ५, २, ३;
 सावि ५, १¹; षो: वृ २, ५, ९;
 षो वृ २, ५, ९; कौ ४, ५.
 स्तन¹ - न: तै १, ६, १; वृ ६, ४,
 २७५¹; वृ १; १योत १३१; नम्
 वृ १, ५, २; ६, ४, २७; नयो: रापू
 ४, ४; योशि १, ९६; णा: वृ ५,
 ८, १; गर्भ ४; निर १, १७; णे
 या २, ७१¹; नौ वृ ५, ८, १; ६, ४,
 ५; त्रि १११¹; गार ४०८: ८.
 स्तन्य- ण्यम् २योत १, ३.
 स्तम्भ¹ - ण्यम् महा ३, ३७.
 स्तम्भ-शाखा- खा मैत्रि ४, १¹.
 स्तम्बा(म्भ-अ)न्त- न्ता: कं ६ २९.
 √स्तम्भ, >मि, स्तम्भवति वृजा
 ८, २¹; वृपू ५, १४¹; शिता ३,
 ४; २०; २१; २५; वट ५, ६¹;
 ७¹; ८¹; स्तम्भेय पी४२२: १; व
 ४३६: १४; स्तम्भय-स्तम्भय
 त्रिता ३, ३२; दत्ता २; लां २१६:
 १३; १८; व ४३०: १३; ४३४:
 २२; ४४२: ८; ४५६: ११;
 स्तम्भयेत् यो १, ५७.
 स्तम्भ, ष्वा- ष्व: छां ६, १, २¹; शि
 ३, १५¹; मना २, १२, ३५¹; गी
 १८, २८; ष्वा शु ४६; ष्वा:
 गी १६, १७.
 स्तम्भी, √भू
 स्तम्भी-भाव- व: सर ३, १¹.
 स्तम्भवा अ ३.
 स्तम्भ¹ - ण्य: मन्त्रि ११¹; ण्भा:
 गार २३३: ८.

a) वेपथु यद. । b) श्र १, १८, १ । c) पा. १ 'सोम', सूक्ष्, पुरस्तात्' इति बोधः द. । d) पा. १ 'सोम', सूक्ष्, अगद्-हितम्' इति बोधः द. । e) १० = ६५ । f) = धीजगन्प्रविशेय- । g) 'सौः' इति अच्चा । h) म्भु¹ = श्रविशेय- । i) म्भु¹ = यमुना- । j) 'अस्कान्' इति तेषा १, २०, १ । k) धा. अर्षे: इ = सतनुमार- , यानिरेय- , शिता- , तदायवोयनिप्रविशेय- । l) वम. । m) ष्व: पा¹ इति निसा. १ यनि. बोधः द. । n) श्र १, १५, १ । o) स्ठ¹ इति मन्त्रि ११ । p) श्र १, १५४, ४९ । q) 'सुने' इति निसा. १ यनि. बोधः द. (उ- अच्चा.) । r) वृ. गपू. वृ ५७८ p । s) = स्तम्भ- । वेपथु यद. । t) ण्यम् इति मे ४, १ । u) तेषा १०, १०, १ । v) १६ इति वृ ११ ।

स्तम्भ-पङ्क्ति- -रूपः शि ६,
११५.
स्तम्भ-शाखा- -खा मै ४, ३^०.
स्तम्भन-
स्तम्भन-कर- -०र अक्ष ५.
स्तम्भित- -ते त्रिवि ७२.
स्तम्भित-स्थिति- -तिः अक्ष
३, १३.
स्तम्भित (>) नी^१ - -० ति व ४२७:
२१; नी पी ४२२: ८; नीम्
व ४३३: २.
स्तम्भनी-मोहिनी-वशीकरि-
णी-तन्त्र- -०न्त्र लान् १६: १२
√स्तम्भ
स्तिमित- -वम् आषे ८: १३.
स्तिमित-गम्भीर- -रम् मैत्रे १,
४, १०; महा २, ६५; यो ३, २४.
√स्तु, > स्तावि, स्तौति वृ ४, १६;
रार १, ९; राउ ५, १; त्रिता ४,
३८; वरा ३, १३; सर ३, ७;
सार २५७: २३; २७८: १;
२८६: १६; वड ३१८: ९; व
४६५: १८; वड ३, ४०; स्तुपते छ
७^०; स्तुवन्ति मैत्रि ७, १-६; अशि
१, १३; मं २, ५, १; राष्ट्र ४, १७;
ए १०; म २, २६; व २१: १६;
२३ ३५: २३; सार २५७: १९;
वड ४, ४०; गी ११, २१; स्तौमि
अक्ष ५, ५९; स्तुमहे त्रिता ४,
६; स्तुवताम् छां १, ११, ३;
स्तुहि वृ २, ८५^०; स्तुवन्त वृ
४, १५, ३३^०; अस्तौव् अश्व २,
स्तुवीत छां १, १२^१; २, २२, २;
स्तुवन्ति प्र २, ४.
स्तुवन्त राउ ५, १^०; अस्तुवत

वृ १, ३; अस्तुवत् अक्षि १.
स्तुष्टाव राउ ४, १; वृ १, ४; वड
३, ३०; ५९; स्तोप्यति वृ ३, १,
१०; स्तोप्यामि गोपू ३३^१.
स्तुपते मन्त्रि १३; वृ ४; १३.
√स्तुष्टवस्- -वासः प्र मुं मां अशि
अ वृजा शां^१; वृपू शां^१; २, १५;
श नाप त्रिवि शां पत्र सी रार राष्ट्र
पत्र अक्ष सू १ आ पाशु त्रिता दे
म ग भा मवा गोपू कृ ह वला गह
अवि पहं शां^१; सि पित्र शां.
स्त्व- -वः अहैभा १०; -वेन सार
२६१: १८; २७८: १.
स्त्वन- -मात् वड ३, ६१; ४, ४३.
स्त्वान- -नः वृपू २, ८५^०.
स्त्वित्- -ता सार २६१: १९.
स्त्वित्- -तौ सार २४८: १०.
स्त्वत्, ता- -तः वृपू ४, १४; राउ
४, १; अक्षि १; गोपू २५; सार
२५२: ९; २५७: ९; -तम्
मैत्रि ६, ९; -ता मना २, ३६^०;
त्रिता ४, १४; -ताम् व ४२७:
१३.
स्तुत-सास्त्र- -स्त्रैः छां ३, १७, ३^१.
स्तुति- -तये मसू ३, ४, १४; -तिः
मै ४, ४, १३^१; मैत्रि ५, १; मं
२, २, ५; -तिभिः गोपू ४६; गी
११, २१; -तिम् राष्ट्र ४, १२;
गोउ ६७; सार २३४: १५; २६०:
२०; २७७: २२; २८७: ४;
-त्वा गोपू ३३; राधा १, २८;
३, १८; ४, २५; सार २४६: १३;
२४८: १०; २६१: १८.
स्तुति-मात्र- -प्रम् मसू ३, ४,
२१.

स्तुत्य^१ राष्ट्र ४, १६.
स्तुत्य- -न्यम् श १६.
स्तुत्वा नाप २; श १६; त्रिवि ६,
२१; सर १, २; सूता १, २३; सार
२६१: १५; १७; वड ३, ३६.
स्तुन्वान- -नः मैत्रि ६, ३८.
स्तुवत्- -वतः सर ३, ८; -वन्त्सु
१, १, ४.
स्तुवमाद, ना- -नः कुं १२; कर् ४;
कृ ४, ४; -नम् राष्ट्र ४, २५;
-ना सी ३७^१.
स्तोतव्य- -व्यः मैत्रि ६, ३४^१.
स्तोत्र^१- -त्रम् तै ६, २३; सार
२७७: २; -त्राणि वृ १, ३, २८.
स्तोत्र-विशेष- -वैः त्रिवि ६,
२१; २३; २५.
स्तोत्रि (>) या^१- -याः वृ ३, १,
१०.
स्तोम^१- -मः गह ११५^१; -मम् क
१, २, ११; छां १, ३, १०; मना
१, १३५^०; २३ ३२: ११; १३;
३३: १, ३; -माः वड ४७: १२५^०;
-मेन छां १, ३, १०.
स्तोप्यत्- -प्यत् छां १, ३, ८; १०.
स्तोप्यमाण- -णः छां १, ३, १०;
-णाः छां १, १२, ४; -णात् छां
१, १०, ८.
√स्तुम्
स्तोम^१- -मः छां १, १३, ३.
√स्तु, स्तु, स्तुष्वीयाताम् वी २, ११५^०.
स्तुष्वीयाता- -नी की २, ११५^०.
स्तौत्वां वृ ६, ४, १२.
स्तेन^१- -नः छां ५, १०, ९; ११, ५;
वृ ४, ३, २२; मना १, १५५^१;
सुवा ४; श २६^१; गी ३, १२.

a) ०म् इति मैत्रि ४, १। b) 'स्तुवन्ति' इति अश्व्या.। c) श २, २३, ११। d) 'स्तुवन्तम्' इति निशा.।
e) 'स्तुवन्त' इति भान.। f) 'तोप्यामि' इति भान.। g) श १, ८९, ८। h) पा. १ यनि. शोधः द. (द. शी
१९, ५१, १)। i) 'सास्त्रा इति निशा.। j) घ. गपू. ४२३५८। k) पा ७, १, २८। l) मा १२, ४। m) श १०,
७५, ५। n) श ८, ८४, १। o) श्रीणि वी^० इति अश्व्या., सृष्वी^० इति शांशां ४, १३। p) ०मः इति निशा.। q) 'तस्य (तौ त्व) वंमणौ' इति अश्व्या.। यनि. शोधः द. (द. धान., शांशां ४, १३)। r) वी २ यद.। s) वी २, १५।

स्तेय- -यम् छां ६, १६, १; -येन
को ३, १.

स्तोक- -कम् वरा ५, ९; -कान् शौ
५१: ४; -केन महा ३, २६.

स्तोतव्य-, स्तोत्र-, स्तोत्रिया-
√स्तु द.

स्तोम- √स्तुम् द.

स्तोम-, स्तोष्यन्-, स्तोष्यमाण-
√स्तु द.

स्त्रां^१ सार २३२: १२.

स्त्री- स्त्रियः छां ८, २, ९; वृ ३, ९,

११; ६, ४, ३; गर्भे ३: अशि १,

५; नि ७; २१; महा ३, ३५;

३९; ४४; कृ १३; या २, ५;

१०; कृपु ३; सार २४१: १३;

२४२: १५; २५०: २३; सि

४, २६; व ४५९: २; अट्टेभा

१४; गो ९, ३२; स्त्रियम् के ३,

१२; छां ५, २, ७; वृ ४, १, ६;

६, ४, २; वृजा ४, ६; नाप ४,

३; ७; महा ३, ४८; १संन्या २,

७९; या २, १४; कालि ४०३:

१८; रञ्जल १३; स्त्रिया छा

२, १३, १; वृ १, ४, ३; ४, ३, १;

महा ३, ४७; या २, १३; स्त्रिया:

ए ४, २; तारा ८४: १२; खियाम्

ऐष, १; श्योतदरा^१. स्त्री ऐष, ३;

श्लेष, १५; ५, १०; गर्भे ३; सुभार:

ते ६, २८; महा ३, ४८; ए ११;

सावि ९: १०; या २, १४; निरु

१, ६; यद: सार २५२: १०;

गु ५२, ६५; अट्टेभा ३; भव २,

२५; स्त्री: कृर; स्त्रीणाम् ४६, ४,

३; ६; नाप ४, ४: २९; राउ ५,

२५; जाद १, १३; स्त्रीभि: छां

८, १२, ३; वृ ४, ३, १३; नाप ६,

३२; गोउ २८; स्त्रीम् छां २,

१३, १; स्त्रीयु १संन्या २, ९०;

अव्य६; मार २४५: १३; २५२:

१४; तारा ८४: १२; गो १, ४, १.

सैन- -ग: नाप ३, १; १संन्या

२, ३.

खिय(खी-अ)स-पाना(न-आ)दि-

विचित्र-भोग- -नै: के १, १२.^१

खी-क्या- -था नाप ३, ७१.

खी-नामन्- -मानि वी १, ७.

खी-पुंस- -पुंसो: यो १, ८०.

खी-पुंस^१- -सयो: नृपृ १, १५.

खीपुंस-रूप- -प: अव्य ६.

खी-पुं-नपुंसक- -कम् गो २, २७;

मै ५, ५; मैत्रि ६, ५^१.

खी-पुमस- -मांसी वृ १, ४, ३.

खी-पुम्-आदि-भेद- -इम् गोपृ

२५.^१

खी-प्रज्ञा- -ज्ञा वृ ४, ५, १.

खी-रूप- -पम् अव्य ६.

खी-लिङ्ग- -ङ्गम् वृ ९.

खी-लोक^१- -केन छां ८, २, ९.

खीलोक-काम- -म: छां ८, २, ९.

खी-यद्- -द:, -द्राय नृपृ १, ७^१;

-द्रै: स २९३: २.

खी-यद्-यालिङ्गा(न-आ)दि-

-दिभ्य: इ १४: १.

खी-यद्-विडाला(ल-आ)दि- -दि

ते ६, १४.

खी-सङ्ग- -ङ्गम् नाप ७; १संन्या २,

७९.

खी-सुख- -खम् ते ६, १०.

खी-हत्या- -त्याया: तुल ७१: २३.

खी^१ त्रिता ३, १७.

स्यं-स्यं^१ व ४३६: २३.

स्यण्डिल^१- -ले छां ५, २, ८.

स्यण्डिला(ल-अ)र्ध- -र्धे सि ३, ८.

√स्थल्

स्थल्- -लम् अशि ५, २०; वाला

७; ते ४, १२; भ १, ५; सार

२५९: ८; व १०; वट्ट ३१७:

११; -लेकुं २४; सार २२७: ३;

२५५: १४.

स्थल्-जला(ल-अ)ग्नि-मर्म-

भेदिन्- -दिन् लां २१४: १३.

स्थल्-त्रि-वेदी- -दि व ४३६:

२३.

स्थल्-दुर्गा^१- -गौं व ४३६:

२३.

स्थले(ल-ई)धर- -रे सि ६,

१९०.

स्यचिर^१- -रस्य नापृ ४, ७५^१.

स्यचिष्ठ, छा^१- -ष्ठ: छां ६, ५, १-३;

मैत्रि २, ६; -ष्टम् मै २, ७; -ष्टा मै

५, ६; मैत्रि ६, ६.

स्यवीयस्^१- -वीय: त्रिदा २, १५८.

√स्था(वधा.), > तिष्ठ, स्थापि,

तिष्ठस, तिष्ठते पुं २, १, ९; नाद

५२; शां १, ७, २९; ४-१^१;

तिष्ठति क २, १, २; ३, ९५^१; छां

६, ११, १; १२, २, ७, ८, १; श्वे २,

१६५^१; ३, २, ९५^१; १६; ४, २०; मै

१, १; मैत्रि १, २; मैत्रे १, १; प्रवि

१५; मवा १, ३^१; व २; अना

३६; तिष्ठन: वृ ३, ८, ९^१; महा

५, १७३; गोउ १३; तिष्ठन्ते वी

a) वैपरी यद.। b) =वीजमन्त्रविशेष-। c) 'स्त्रियाः' इति श्रवणा.। d) 'स्त्रियाः' इति श्रवणा. इति.

गोषः द. (ग्र. निशा.)। e) शौ १०, ८, २७। f) रूप्यक^० इति श्रवणा.। g) समाप्तान्तोऽच् प्र. (पा ५, ४, ७७)।

h) *वा इति पा. इति. गोषः द. (ग्र. नाप.; सार.)। i) *पुंसादि^० इति निशा.। j) समाशरे इत्स. पुं. क उत्तं.

(पा २, ४, ६, १७)। k) गु. गृ. वृ २३३८। l) म्यु.। m) श्र ७, १००, ३। n) वैपरी यद.। <स्थूल- (पा ६, ४,

१५६)। o) 'तिष्ठताः' इति निशा. इति. गोषः द. (ग्र. श्रवणा.)। p) तैश्वा १०, १, ३। q) सा ३२, ४। r) तैश्वा

१०, १०, ३। s) तैश्वा १०, १, ३^१।

४, ११५; योच २१, १२, ७४; तिष्ठति प्र २, १०; छां ८, ६, १; वृ ३, ८, १; ४, ३, २०; वृजा ७, ४; ते १, ४७; निम्ना १, ९; योच ८५; निवि. १, ९; शां १, ४; महा ६, ३०; गोव ६२; अर्थे १८; तिष्ठते मैत्र, ४, १३; तिष्ठति महा ४, ८; अज ४, ७७; वज ३, ६१; गी १०, १६; तिष्ठामि १संन्या २, ३६; अज ३, १२; तिष्ठतु सार ३, ३; लिं ३१०: ७; तिष्ठ नाप ४, ७; महा ४, ८; अज २, १९; अघ्या ६४; तिष्ठ-तिष्ठ नाप ४, ३८; अतिष्ठ मी २, ६; मैत्रि २, ६; महा २, २७; अतिष्ठन् पै १, २६; प्र ३६: ९; तिष्ठन् मैत्रि ६, १९; कौ २, ४; ते १, ५१; नाप ३, ५९; योच ७३; महा ४, ८५; योशि १, २३; अध्या १८; १आ १९; यो २, ३६. तस्यो धे ३, २१५; अशि ५, ३१५; अज ३, १७; स्थास्वति गी ३, २२; ४, ८; गी २, ५३; स्थास्ये ते ३, २५. स्थायते शां ३, १; योशि १, १२७; अज ४, ४७; ६०. स्थाययति गौ २, ७; मना २, १६५; दे २०; लिं ३०९: ५५; स्थापय गी १, २१; स्थापयत् रात्र ४, २४; स्थापयेत् १योत ११८; शां १, ३, १०; योशि १, ११०; शि २, ३०. स्थाप्यसे निम्ना २, ११७. तिष्ठसिन् वृ ३, ५, १; सुवा १३;

अज ४, ३८; शा १८. १तस्थिवस-स्थुपः अशि २, १५; सू ७५; वज ३१६, १४५; -स्थुपाम् पा १, २. २तस्थिवस(पति)-स्थुपः ५व ४४२: ८; ४४७: १४; ४५२: १; ४५५: ६. तस्थु-स्थुः पा १, २. तिष्ठन्-ष्ठर् ई ४; -ष्ठताः नाप ३, ६६; महा ४, १३२; योशि १, १५; अज ५, १; अध्या ५५; यो १, २९; -ष्ठन् वृ ३, ७, २-३; ४, ३, ९; मना २, १३, २५; मैत्र ९; १योत २३; नाप ५, ९; शां १, ७, १४; महा ६, ३४; १संन्या २, ३३; अज ३, ४; ४, ६३; अशि ३६; कुं २८; आच ५; शि ७, १६; १२४; सिशि ३८१: ११; भव २, ६२; -ष्ठन्तम् क २, १, ६; राट २, ७२; गी १३, २७; -ष्ठन्ती सार २८९: १०. तिष्ठन्ती-न्ती शा १, ७, ४१; -न्तीम् क २, १, ७. तिष्ठमान, ना-नम् मैत्रि ६, २८; ३८; नस्य वृ ३, ९, २८, ७; ना: मे २, ६; मैत्रि २, ६. स्थापु-पवे छां ५, २, ३; -पुः मै २, ६; मैत्रि २, ६; सवा ४; गोव १५; भव २, ४०; गी २, २४; -पुम् क २, २, ७; न्यौ वृ ६, ३, ७-१२; योशि ४, १५. स्थापु-स्व-स्वम् योच ८९. स्थापु-दक्ष-कर्म-वियमतो-(त-उ)पानपादा(द-आ)दि-

-व्यः सं ४. स्थापु-प्ल-पः ता ३, ९. स्थापु-भूत-तेन विता १, ३१. स्थापवा(पु-आ)दि-दिव्यः सांका ४१. स्थातव्य-व्यम् भ २, १. स्थातुम् वृ १, १५. स्थापु-ता छां ३, ११, १; अना ३. स्थान-नम् प्र ३, १२; छां ५, १०, ८; वृ ३, ११; ना २; अना ३. छपु २, ६; मैत्रि १, २; सुवा ११: १५; लु १७; काला ४; ते १, ६; ७; ध्या ४०; ऋवि २, ५२; १योत ८८; निम्ना २, ८८; १३०; १३६; योच १०५; द १; १५; राट ३, १; पै २, १५; महा ३, १२; योशि १, १६९; ५, ५; ६, ६; १संन्या २, ८०; यो १, ७४; भ २, १७; जाट ४, ११; ७, ५; गोव १६; वरा ५, २९; ५०; ५३; सर २, ९; २म ३६: ११; ३५; १५; ३६: १६; १९; २१; २३; क ६३: २; राधा १, ६; १२; १४; शाट २२१: ६; २२४: ६; १२; १३; १५; २२५: ८; २२७; ५; २२९: १८; २३०: २; २३०: २; २३१: ३; २३६: ७; २३७: १; २३८: २१; २३९: ३; २४०: १८; २४१: ७; २४२; १५; २४३: ५; ७; २४६: ७; २४८: १५; २५०: २१, २५७: ६; २५९: १८; २६८: ५; २८२: १७; २८५: ११; २८८: १३; शि २, १८; ७, १२८; विवा १; विम ६, ८;

a) छन्ति इति आन., शांभा ६, १५। b) छते इति निवा., अध्या। यनि. शोषः द.। c) छति इति आन.। d) छति इति वे.। e) छन् इति अध्या.। f) छन् इति सात.। g) 'तस्थुः' इति पा.। यनि. शोषः द. (द्र. 'वस्ये' इति तैसं १, ८, ६, १)। h) 'वस्ये' इति पा.। यनि. शोषः द. (द्र. 'वस्ये' इति तैसं १, ८, ६, १)। i) तैषाम्पा १०, १६। j) 'पवेव' इति आन., अध्या.। k) श्र ७, ३२, २२। l) श्र १, ११५, १। m) श्र १, ८९, ५। n) तैषां १०, ११, २। o) न्ती इति निवा.। p) पै २, १२.। इह १शिव-१पुत्र-इह-प्रभु.। q) 'स्थापवा' इति आन., 'स्थापवा' इति अध्या.। r) द्र. गृ. इ० २८। s) निवा. 'ममन->नम्' इति शोषः द. (द्र. गृ. इ० ८८b)।

गी ५,५; ८, २८; ९, १८; १८, ६२; नयोः गौ२, ११; नस्य सार २२७: ५; २५९: २०; -नात् वृ २, ४, १; ध, ५, २; मै१, ७; मैत्रि १, ४; मैत्रि १, २; त्रिना २, १८; १३०; १संन्या २, ६; जाद ७, ५; सार २२७: २; २५३: ४; २८०: २२; शि २, १७; -नानाम् वृजा ७, ८; रुजा३, १; -नानि गर्भे ५; वृजाध, २७; वृ २; सुधा ५; योति ५, १२; शां १, ४; ८; पै २, ११; पत्र २; भ १, १; २, १८; सार २२४: २०; २४०: ९; २५२: २२; २६३: १५; २६७: २; २८५: १९; -ने वृ ४, ३, ९; मैत्रि ६, २३; अना ३, ५; वृजा ३, १; ध्या ३१: ९३, १; १योत २६; १३७; २योत १, ९; नाप, २१; त्रिना २, ९; शां १, ७, ४०; जाद ४, ५५; पि ४; मार २२३: २०; २२४: १६; २२५: ५; २२७: २२; २२८: २; १८; २२९: १९; २३८: १; २३९: १३; २५३: १६; २५५: २; २५६: ७; २५७: ७, २६०: १२; १४, २६२ २१; २६६: २३; २६८: ४; २७६: १; २८०: १६; २०; २८१: १; १०; १४; १८; २०; २८३: १७; शि ७, ७०; ७६; गी ११, ३६; -ने-ने सार २४६: २; २८४: २; -नेषु धे ५, ११, कौ १, २; त्रिना २, २; सार २५३: ९; २६७: ९; २८३: २३; भव २, २४. स्थान-क- -कम् १५ ९५. स्थान-काल-त्रय- -यम् १३ ३१: २. स्थान-मम्(>) वृ ३, २, ११

स्थान-त्रय- -यात् ऋषि ११. स्थानत्रय-व्यतीत- -तः ऋषि १०८; -तस्य त्रिता ५, ११; अवि ११. स्थान-नियम- -मः सांस् ६, ३१. स्थान-भेद- -दात् मं २, ४, ४. स्थान-विशेष- -यात् वृ ३, २, ३४. स्थान-बुद्धि-न्यास- -सम् षो ३ स्थाना(न-आ)दि-व्यपदेश- -दात् वृ १, २, १४. स्थाना(न-आ)नुप्रदान-करण- -णम् २३ ३४: ८. स्थाना(न-आ)न्तर- -रम् त्रिना २, १८. स्थानिवृ- -निभ्यः सुधा ५. स्थानि-वर्ग- -मं: गौ २, ८. स्थान्यु(नि-ज)पनिमन्त्रण- -णे योवृ ३, ५२. स्थापक- -कः शि १-२, २५. स्थापन- -ने त्रिना २, ११४. *स्थापया- *स्थापयाम(म्/अ)स(भुवि), स्थापयामास गोच ६९: १४. स्थापयित्वा अशि ५, ७, १९; त्रिना २, ४७; वृ ३१७: ७; गी १, २४. स्थापित- -तः महा ४, ६५; -तस्य अष्या ३४. स्थाप्यं धे २, ८; राष्ट्र ४, २९; शा १, ४; ७, ४३; कुं १९; मार २३६: २१; वि ३२; शि २, १; २६; ६; ७२; ७८; ७९; ८३; ८४; १४७; १४९; १५०; ७, ३५; चक ४; वृ ६, ८; १०; भव ३, २५. स्थाप्य- -यम् शि ४, २.

स्थावर- -रम् ऐ ५, ३; नि ७; २२; १संन्या २, ९१; २शिसं १६; -रस्य धे ३, १८; गु५०; -राणाम् वृ ३, ३१; गी १०, २५; -राणि त्रिवि २, १६. १स्थावर-जङ्गम- -माः गु ३१; -मानाम् गृह २३. स्थावरजङ्गम-नामक- -कैः नाप १. स्थावरजङ्गमा(म-आ)रमक- -कः नाप ५, २४. स्थावरजङ्गमा(म-आ)रमन्- -रमा राउ ४, १८. २स्थावर-जङ्गम- -मः २३ ३७: १; -मम् मन्त्रि १७; महा ४, ४४; वद; भव १, १९; चृ १७; कालि ४०२: १७; गी १३, २६; -माः वृ १०; शि ४, ५७; -मानि २३ ३२: ४; ८. स्थावर-त्व- -त्वम् रुजा १, ३. स्थावर-स्वरूप- -वान् वृ २, १५. स्थावरा(र-अ)न्त- -न्तम् मन्त्रि १६; चू १६. स्थित, ता- -तः मैत्रि ६, ३०; ३८; मना २, १३, २४; अना ३, १९; शु १, ७; ते ४, ३१; ४०; ६१; ५, ६२; ६५; ६, ८५; ध्या ६; ७; ३८; ८४; नाद ३१; ऋषि १८; २१; ४१; ४२; ६०; ६८; ७०; १०५; १योत १०२; नाप ४, १; ६, १२; १३; त्रिना २, १९; ६०; ८४; योच २३; ५८; ९०; ९१; पै २, ३४; महा २, १२; ४, १२६; ५, २७; योशि ३, १३; ५, ३३; १संन्या २, ५१;

a) *नम् इति अष्या. । b) यमाहारे दम. । c) स्वाम्युं इत्यपि पाठे. । d) पा ७, १, ३८ । e) *रगानि इति निवा. । अष्या. संटि. । f) दम. । g) वम. । h) तैश्चा १०, ११, २ । i) *तम् इति आन. । j) वृ. कर्. १७, २६d । k) *नरिचं इति अष्या. संटि. । l) *तम् इति निवा. । अष्या. संटि. ।

५२; अन्व २; अक्ष १, ५५; २;
 २९; ४२; ३, ८; २२; २३; २४;
 ५, २५; २६; अक्षि ३९; १आ
 १२; १अव २; कर् १८; पं १७;
 ३६; या २, ३; वरा ४, ३; मौ २,
 १३; ११५; ११; नापू १, १५; सार
 २५५; ९; २५७; १६; शि २,
 ५; ४, ६५; ५, ३५; ६, २७१; ७,
 २; १८; २१; ६३; गी ५, २०; ६,
 १०; १४; २१; २२; १७, ४२;
 १८, ७३; -त्वम् छां १, ३, ६; वृ
 २, ३, १, २; ४; मैत्रि ६, ३८; वृवा
 ३, १; ६, ७; शु ३, १४; ते १, ९;
 १०; ५, ३; १; ३७; ध्या २; ४५;
 ८७; व्रि १५; १योत १३७;
 १३८; २योत १, ९; योच् ८;
 ९७; गृ ४, १२; शां १, ५; ७,
 ४३; महा २, ६६; योशि १,
 १७२; ३, २०; ५, ९; २१; अक्ष
 १, २१; ३६; ५, १०७, ११०;
 अथ्या १९; दृजा १, १; जाद ५,
 ७; ६, ३; ३१; गोख ५६; वरा ४,
 २१; सु २, २, ३६; योरा ९; सार
 २८२; २३; शि २, ३; ६; १३४;
 २५२; ७, ८३; भव ३, १; पित्र
 ६, ५; गी ५, १९; १३, १६; १५,
 १०; -तस्य वृ २, ३, २४; का
 ८; अता ६; नार ७; -वा प्या
 ५५; वि ९; १योत १२७; निभा
 २, ६४; ६८; १५८; योच् १८;
 मं २, ३, ६; महा ३, ८; ५, २६;
 १२१; ६, २४; योशि ३, ४; योन्
 ११; गोख ५७; जाद ४, १२; १३;
 १५-१७; १८; वरा ५, २५; २७;
 योरा १२; १८; १३३; १६; शि
 २, ५; भव २, १४; -ता; मे ४, २;
 मैत्रि १, ४, १; वृजा ४, २४; १योत
 १३५; १योत १, ६; रापू ४, १६;

महा ५, ४२; १३९; योशि १,
 ११९; ६, ५७; अक्ष ४, ४; ११;
 सार २३०; १२; २४२; १, ३;
 ७; १४; १५; २५५; ५; शि ६,
 ७५; गी ५, १९; -ताम् गौ ४,
 ६३; ६५; सार २४२; २; गी १,
 २६; -तानि त्रिवि ६, ६; रापू ३,
 १; अक्ष ४, ८१; -ताम् जाद ६,
 ३९; नार २७७; २१; -ते त्रिवा
 २, ७०; ७१; अता ५; मं १, २,
 ७; महा ५, ३०; जाद ४, १४;
 वरा २, २३; ४, ६; ५, २६; शि ६,
 १५५; सिशि ३८३; ८; ९; नक्ष
 ३, ३८; वसू २, ४, ६; -तेषु वरा
 ३, १६; -सौ मैत्रि ६, ३६; अक्ष २,
 ३६; ४, ३२; रह ४१; गी १, १४.
 स्थित-ता- -ता वृ ४, १, ७.
 स्थित-धी- -धी: गी २, ५४; ५६
 स्थित-प्र(ज्ञा)ञ- -ज्ञा: अथ्या
 ४२; गी २, ५५; -ज्ञस्य गी २, ५४.
 स्थितवत्- -ताम् महा २, २१.
 स्थिति- -ति: वृ ४, १, ७; गी २,
 २८; ४, ८०; कौ २, ९; पर्व १;
 नि ३२; ते १, ३६; २, १२; ५, ११;
 नाद २५; नाप ३, ४९; निना २,
 १२४; १२७; त्रिवि ३, ४-७; ४,
 १२; पं ४, १; महा ५, ५; १८;
 १६४; ६, ४; ७३; योशि १, २२;
 ११७; तुअ १; अक्ष १, ४९; २,
 १२; ५, ८४; अथ्या ५६; १अप
 १; पं ४; आ २७१; गोख ३१;
 वरा २, १; मुन् २, ६३; स्व ६०;
 २; नापू १, १८; सार २५०; १७;
 २९०; ४; भव २, ५८; गी २, ७२;
 १७, २७; -तिम् ते ४, १; योशि १,
 १२८; १संन्या २, ४२; ६७; ७१;
 ७७; अक्ष २, १४; १९; ४, ७५;
 ७६; वसू ४, १९; गी ६, ३३;

-सौ गी ३, ९; योच् ७२; महा ५,
 १८२; योसू १, १३; -त्या अथ्या ४.
 स्थिति-कारण- -ताम् त्रिता २, ६.
 स्थिति-निबन्धित- -नी- -नी
 योसू १, ३५.
 स्थिति-प्रलय- -सौ त्रिवि ३,
 ५; ६.
 स्थिति-रूप- -पा- -पा नापू
 २, ८.
 स्थिति-विद्- -विद्: गी २, २८.
 स्थित्यति-अ- -न- -नाम्नाम्
 मयू १, ३, ७.
 स्थित्यति-अ- -न्ते- -न्ते त्रिवि ३,
 ४-७; वि २९.
 स्थित्युति-अ- -प्रति-प्रलय- -या:
 सांका ६९.
 स्थिरा मे ४, ४; मैत्रि ६, २०; मैत्रि
 १, ४, ६; शु ३; ३; ते ३, २५;
 नाप ४, ३८; रापू ४, ५; शां १,
 ५; महा २, ७६; अक्षि ४०.
 स्थिर, रा- -र: मै २, ४; ११; मैत्रि
 २, ४; ७; ६, २८; नाद ५६; महा
 ४, १५; १७; ५, ५१; ६, ५; ३३;
 ३८; योशि ६, ३६; १संन्या २,
 ५०; अक्ष ४, ९०; ५, ३५; वरा
 ४, ३१; ५, ७४; चा ४; सां
 १, ३३; गी ६, १३; -रम् वृ ३,
 ९, २८, ३; मैत्रि ६, २३; ७, ३; ते
 ६, २१; नाद ५६; योन् १०७;
 ११४; महा ५, ९८; योशि १,
 १२७; अक्ष १, २९; ४, ६०; ५,
 ११०; जाद ६, १८; गी ६, ११;
 १२, ९; -रा नाद ५६; सी ३७;
 मं १, २, १; अता ६; -रा: गी १७,
 ८; -ताम् क २, ३, ११; अक्ष २,
 १५; गी ६, ३३; -रे वरा ४, ३१;
 -ऽ- ३: प्र सुं मां अशि अ वृजा
 सां; वृसां; २, १५; नाप गी

a) अक्षस्य इति आज. । b) 'गौ' इति कथ्या. । c) वृ. मयू. वृ ४९४। d) 'रम्' इति कथ्या. सि. ।
 o) पा. १ 'रम्' इति सौपा. d. । f) 'तम्' इति कथ्या. । g) 'ताम्' इति कथ्या. । h) वृ १, ८९, ८।

श-त्रिवि रात्र राप् शां पप अक्ष
 सू १था पापु पय त्रितादे भा म्र
 म ग मवा गोप् कृ ह दत्ता गढ
 अत्रि पदं शतौ; ति पित्र शां; नौ
 योशि ६, ३२*.
 स्थैय- -यैमते ४, २६; नाप
 ४, ११; शां १, ७, ५२; महा ३,
 २८; ३२; योशि १, १३५; अक्ष
 ३, ५; अक्षि ३१; वरा ४, १२;
 शि ६, १५९; योसू ३, ३२; गो
 १३, ७; न्येग भा ३५.
 स्थिर-कार्या(वे-अ)सिद्धि- -द्वे:
 सांसू १, १४.
 स्थिर-अङ्गम-मध्य- -प्ये
 अद्वै १.
 स्थिर-त(र>)रा- -रा अक्ष १,
 ४९.
 स्थिर-ता- -ताम् अक्ष १, ५१;
 भव १, १८.
 स्थिरता-योग- -मात् सांसू
 ५, ११.
 स्थिर-दीप-निभा(म-था)-
 कृति- -तिम् ध्या १९.
 स्थिर-बुद्धि- -द्धि: ध्या ६; गो
 ५, २०.
 स्थिर-मति- -ति: नाप ३, ८६;
 ७; पप ४१९; १३; गी१२, १९.
 स्थिर-मनस- -ना: शां १, ७,
 १६.
 स्थिरमात्रादृढ^b- -दम् तु ६.
 स्थिर-सुख- -सुम् सांसू ३, ३३;
 ६, २४; योसू २, ४६.
 स्थिर-स्थापित्- -यी अना
 २३*.
 स्थिरी/कृ, स्थिरीकृत्यात् योशि
 ६, ५८; गो ३, २.

स्थिरी/भू
 स्थिरी-भूत- -ते शां १, ७, ५.
 स्थिरी-भूत्वा^d नाद ३८.
 रस्थि(र>)रा^e-
 स्थिरा(रा-आ)दि-वेदा(द-आ)-
 (य>)घा- -घा: पी ४२२: १३.
 स्थिरा-मु(ख>)ली- -लि पी
 ४२१: ९.
 स्थू(ण>)गा^h- -गा वृ २, २, १.
 स्थैय- -यम् अत्र ५, ११८.
 स्थ्या(लि>)ली^h-
 स्थाली-पाकⁱ- -कस्य वृ ६, ४,
 १९.
 स्थालीपाका(क-आ)वृत्- -वृत्ता
 वृ ६, २, ११.
 स्थाल्या(ली-आ)दि- -दीन् शि ६,
 ५६.
 स्थावर- √स्था द.
 स्थिरातपा^g राप् ४, ६२.
 स्थूल, ला^b- -ल: गो २, २३; नि१७;
 ध्या ९३, १; नाप ८, ७; १०;
 योचू ७५; योशि १, ४२; अत्र
 २, २०^l; अद्विभा १३; -लम् गो
 १, ४; अशि २, २२; अ १; ते
 १, १; २, ११; ४, २२; नाप ९,
 २०; योशि २, १४; १५; ५,
 २८^l; वरा २, ६८; वटु ३१४:
 १९; स ३७२: १५; १६; पित्र
 ६, १२; सासू ३, ७; ५, १०३;
 -लया इ १०: ११; -ला: त्रिभा
 २, ५५^l; ७६; रुजा १, ११; -लात्
 आनो २३; योशि १, ४२^h; सांसू
 १, ६२; -लान् सता १, ७; अक्ष
 ३, १३; रुजा १, १३; -लानि
 श्रे ५, १२; पै १, २७; -ले स
 ३७२: १६.

स्थूल-कद्वित- -सै: योचू ७२.
 स्थूल-ना- -ताम् महा ५, १५४.
 स्थूल-स्व- -स्वात् वृ १, ४; २,
 ५-७; नाप ८, ६.
 स्थूल-देह-गत- -ता: आनो २३.
 स्थूल-देह-विसर्जन>)नी- -नी
 पै २, ४७.
 स्थूल-देह-विहीना(न-आ)मन्-
 -न्मा ते ४, ७३.
 स्थूल-देहा(ह-अ)भिमामिन्- -नी
 पै २, २६.
 स्थूल-प्रकृति- -ति: योचू ७२.
 स्थूल-म(सा>)म- -म: वृ १, ६;
 नाप ८, ७; -मम् वृ १, १३;
 नाप ८, १८.
 स्थूल-मुञ्- -मुक् मां ३, गो १, ३;
 वृ ४, ४; वृ १, ६; नाप ८, ८;
 योचू ७२; राउ ३, १; विद्या १;
 व १, ५.
 स्थूलमुक्-स्व- -स्वात् वृ १,
 ४; नाप ८, ६.
 स्थूल-भूत- -तानि सांसू १, ६१.
 स्थूल-मू(ल>)ला- -ला: त्रिभा २,
 ७६.
 स्थूल-रूप- -पेण योशि ६, ५०.
 स्थूल-विराट्-स्वरूप- -प: त्रिभि
 २, १५.
 स्थूल-शक्ति- -क्ति: पै १, १३.
 स्थूल-शरीर- -रम् पै २, ८; २०;
 -रै: व ४, २४.
 स्थूल-सूक्ष्म- -क्ष्मम् अना २२;
 -क्ष्मेषु वृजा २, १.
 स्थूलसूक्ष्म-कम- -मात् अक्षि
 ४५.
 स्थूलसूक्ष्म-तरङ्ग-केन-बुद्धुद-
 करक-लवण-पापाणा(ण-था)-

a) 'तौ इति निष्. संटि. । b) पा. १ 'स्थिरम् आरमदम्' इति शोध: द्र. (तु. अख्या.) । c) 'र: स्था'
 इति आन. । d) पा ७, १, २८ । e) =वगलामुक्ती-देवी- । f) वृ. ३ =पात्रविशेष- । वैप १ यद्र. । g) निष्., अख्या. ?
 'स्थिरा, स, ए' इति शोध: द्र. (तु. आन.) । h) वैप १ यद्र. । i) अस्यू^१ इति अख्या. । j) सकृत् 'लसू' इति निष्.,
 अख्या. संटि. । k) 'कारस्यू' इति अख्या. ।

घादि-अनन्त-वस्तु-भेद-
-दः त्रिवि ८, २.
स्थूल-सूक्ष्म-कारण- -गति वरा
१, ६.
स्थूल-सूक्ष्म-कारण-देहो(ह-उ)-
ज्व-पूर्वक- -कम्^१ पै २, २.
स्थूल-सूक्ष्म-कारण-तुर्य-रूप- -पैः
नाप ६, १^१.
स्थूल-सूक्ष्म-बीज-साक्षि-
-क्षिभिः वृत् २, ५, ७; ३, २-५.
स्थूल-सूक्ष्मबीजसाक्षि-भेद-
-देन वरा ४, १.
स्थूल-स्वरूप-सूक्ष्मा(चन-अ)नवया-
(य-अ)र्थवपव-संयम- -मात्
योत् ३, ४५.
स्थूला(ल-आ)दि- -दि अना २२.
स्थूली/क
स्थूली-कर्तुम् पै १, १८.
स्थूलो(ल-क)ह- -रुम् वप २, २.
स्थेय- , स्थैय- /स्था ६.
√स्त्रा, >स्त्रपि, स्त्रापि, स्त्राति अव्य ७;
-स्त्रायात् भं २, २.
स्त्रपन- -नम् भ २, २०.
स्त्रपयित्वा अत् ४.
स्त्रात- -त् अशि ७, ४; वृजा ७, ७;
बाला १९; वा ३९; पै ४, २३;
महा ६, ८३; जावा २८; च २१;
१०; ऊ ६४; १२; वृष ८५;
१६; वट्ट ३१८; ७; शि ५, ४१;
४३^१; गार ४०८; १७; श्या ७;
-तम् शि ७, ३२; -तस्य शि ५,
३७.
स्त्रान-क^१- -कः जा ४; नाप ३,
७७; पप ४१८; ५; या १, १.
स्त्रातक(ह-अ)प्ययु- -यैव
मत्त्रि ८; चू ८.

स्त्रावा वृजा ३, २३; नाप ४, ३८;
त्रिवि ५, १२; महा ३, २; शोशि ६,
३०; जाद ४, ५५; मोउ ३; राधा २,
६; वि ९.
स्त्रान^१- -नम् आठ २; मैत्रि २, २;
५-८; तै ४, १२; ५, ५२; नाप ४,
२३; ५, ४; ६, ३३; मं २, २, ५; रक
११; कुं १२; कठ ३; भा ३२;
शा १२; आयु ३; शि ५, १५;
१७; २०^२; २३; २९; ३२;
३४-३६; ६, १४१; २१९; सिशि
३८१-१५; १७; कथु ३, ३; -नेन
वृजा ७, ७; -नेयु वट ६, २९.
स्त्रान-दान-न्यजना(न-आ)दि-
(क>)का- -काः वरा २, ७४.
स्त्रान-द्रव्य- -व्यम् कुं १३.
स्त्रान-ध्याना(न-आ)दि-
स्त्रानध्यानादि-क- -कम् ते
५, ४२.
स्त्रान-पुण्य-प्रभाव-
स्त्रानपुण्यप्रभाव-तस(>)
महा ३, २.
स्त्रान-पूजा-जप-ध्यान-होम-
सर्पण-तत्पर- -रः राट ४, ३.
स्त्रान-भोजन- -ने शि ७, ७.
स्त्रान-भोजन-पाना(न-अ)र्थ-
-यम् शि ६, २६७.
स्त्रान-शाही- -टीम् कुं १०, कठ
२; कथु ३, २.
स्त्रान-श्रीच- -वे १अभ १४.
स्त्रान-सप्रो(न-उ)पभोग-
-नाय शि ६, २५२.
स्त्राना(न-आ)दि- -दिभिः शी
३६; -देः नाप ४, २५
स्त्राना(न-अ)नियेचन- -नम् शि
५, ४८.

स्त्राना(न-अ)र्थ- -यम् शि ५, ३०.
स्त्रापि(त>)ना- -०ते वितार ७, ७०.
स्त्रायु^१- -यवाः गर्भं २^१; -युग्म्यः गर्भं
२^१.
स्त्रायु-वद्ध- -इम् नाप ३, ४६.
स्त्रायु-शत- -तम् गर्भं ५; -तानि
निह २, २.
स्त्रायु(यु-अ)स्थि-प्रस्थि-शाखि-
(न>)नी- -न्याः महा ३, ३९;
या २, ५१^१.
स्त्रावन्^१- -व तै १, ७, १; वृ ३, ९, २८,
३; निह १, ४१^१; -न्नेः निह १, ५१^१.
√सिंह
सिंहय- -वम् भव ४, १९; -ग्याः
रजा १, ११; गी १७, ८; -ग्यात्
रजा १, १३.
सिंहय-निर्मल- -लम् यो २, २९.
सिंहय-खलना- -ना महा ५,
८०.
सिंह^१- -सिन्क् व ४४३: १९१^१.
सिंहिति^१- -तिः व ४४३: १९१^१.
स्त्रीहिती^१- -तिः व ४४३: १९१^१.
स्नेह^१- -हः मै ३, ५; मैत्रि ३, ५;
अशि ४, ५^१; वित्ता ४, १९; वृप
२, १०; सार २५२: १९; २८८:
१२; वट्ट ३१५: २०; -हस्य सार
२५०: १४; २८८: २३; -हान्
२३ ३२: १^१; -हेन सार २८८:
१२.
स्नेह-यास- -घेन शि ७, १०३.
स्नेह-पैशुन्य-माससर्प^१- -यम्
नाप ३, ५८.
स्नेह-प्रणय-गर्भ- -भाषि अशि
७.
स्नेह-भाव- -वेन सार २३६:
१२.

a) वा, त्रिवि. इ. । b) *रुण् इति निरा. । यनि. शोषः इ. (तु. अभा.) । c) व्यु. इ. वैपरी वट्ट. । d) 'स्त्रापा' इति स्त्रान. ।
 ०) 'स्त्राना' इति स्त्रान. । १) *यः इति पा. । यनि. शोषः इ. । २) *या इति पा. ? यनि. शोषः इ. । ३) *यः इति पा. ?
 यनि. शोषः इ. । ४) वा. अर्थ. इ. = अमित्तन्विरोधे. । ५) तैसा ४, २३, १ । ६) = प्रति- , घृत्- प्रघृ. । ७) *हेन इति
 स्त्रान. । ८) *हः (प्र) इति पा. ? यनि. शोषः इ. (तु. सपदे तयुत्तरे पाकवे 'ज्योर्त्वावि' इति) । ९) रामाहारे द्रव. ।

स्नेह-मार्ग- -गोः सार २२०:३;
 -गो सार २३०:३१; २९१:१७.
 स्नेहमार्गीव- -याः सार
 २२०:७.
 स्नेह-व(त्)>ती- -ती सार
 २३३:४.
 स्नेह-वर्जित- -तः पप४१९:६.
 स्नेह-वैर-विष- -याणाम् अक्ष
 ५,१७१.
 स्नेहा(ह-आ)धिक्य- -क्यम्
 सार २५६:१६.
 स्नेहा(ह-आ)सक्त- -क्ताः सार
 २५५:१३.

√स्नुह्
 स्नुहि-

स्नुहि-यत्र-निभ- -भम् वो २,
 १९.
 √स्पन्द्, स्पन्दते गौ३, २१; महा ५,
 १७४; छाग २५:९.
 स्पन्द- -न्दात् १,४५.
 स्पन्द-मात्र- -त्रेण अक्ष ५,
 ४३.
 स्पन्द-शक्ति- -क्तिः अक्ष ५,
 २५, २६; महा ४, १००; -क्तिम्
 अक्ष ३, १६.
 स्पन्दमान- -ने गौ ४, ४९; ५१.
 स्पन्दित्वम् १, ३८.
 √स्पृष्ट्, स्पृष्टते वृ १, ५, २१; अ-
 स्पृष्टन्त वृ १, ३, १; ५, २१.
 स्पृष्ट(रिं)>श्री- -शां सार ४०७:
 १८.
 √स्पृष्
 स्पृष्ट,ष्टा- -ष्टः प्र५४, २, १३; -ष्टम्
 १अव २७; त्रिता १, ३५; ४५;
 १७५; २, १४; -ष्टाः त्रिता ३,
 १५.
 स्पृष्ट-वपुस- -पुः पै १, १४.

स्पृष्टा(ह-अ)स्पृष्ट-वपुस- -पुः
 पै १, १२.
 स्पृष्टी/कृ, स्पृष्टीकुर्यात् त्रिता
 २, ३२.
 स्पृष्टी-कृत- -तम् त्रिता १,
 ५५.
 स्पृष्टी-कृत्यां त्रिता १, ७८;
 २, ७; १३; १५; १८; २२; २५;
 ३८; ३०.

√स्पृष्ट्, स्पृष्टते तै २, ९, १; स्पृष्टोति
 तै १, ७, १; स्पृष्टोतु तै १, ४, १;
 नाप ४, ३८९.

√स्पृष्ट्, >स्पृष्टी, स्पृष्टते प्र४, २; वरा
 २, ५८; स्पृष्टति छां ८, ६,
 ३; वृ ४, ३, २९; ४, २; ५, १५;
 मैत्रि ६, ७; १०; वृ ५, २; ते ४,
 ४०; त्रिता ३, २९; यु ३३;
 स्पृष्टतः छां ८, १२, १; १आ
 १५; स्पृष्टान्ति मैत्रि ६, १०; वरा
 ३, ३; सार २७२: २३; २७३:
 ५; स्पृष्टामि आबो २७; स्पृष्टोव
 वृ ४, ३, २९; ३१; ५, १५; गौ ४,
 ४१; १योत ७१; अक्ष १४; वरा
 २, ९; तुल ७०: ९; शि २, २४;
 ७, ५५; ९२; वज ६, ४१.
 पस्पृष्टो के ४, ३; पस्पृष्टुः के ४,
 २; अस्पृक्षत् वा ३.
 स्पृष्टोयति मै ५, ७; मैत्रि ६, ७.
 स्पृष्टो- -शः शारी ८; १संन्या
 २, १६; क १४; भव २, १७;
 -शोम् ते ३, ५७ ५, १०३; सार
 २३१: २२; -शोः छां २, २२,
 ३; ५; अक्ष ३; -शोर् क २, १,
 ३; वृ ३, २, ९; अक्ष ३, ४; गौ ५,
 २७; -शानाम् वृ २, ४, ११;
 ४, ५, १२; सुवा १३; -शो गर्भ
 १; -शोन् वृ ३, २, ९; -शोषु छां

२, २३, ४.
 स्पृष्टो-गुण- -णः त्रिमा १, ९.
 स्पृष्टो-प्रहण- -णम् नाप ६, १.
 स्पृष्टो-दोष- -येण १संन्या २,
 ७२.
 स्पृष्टो-वीज-रसो(स-उ)मुस-
 -खम् महा ५, १४८.
 स्पृष्टो-यत्- -वान् गौ ७.
 स्पृष्टो-व्यायु- -युभ्याम् गौ ७.
 स्पृष्टो-विद्या- -द्या कामे १२.
 स्पृष्टो(शो-आ)कृषि(न्)>णी-
 -णी आय ३९५: ५.
 स्पृष्टो- -नम् क ५; सार २३५:
 ५; ६; ८; १२; भव २, १६; कथु
 ३, ५; गौ १५, ९; नात् तुल ७०:
 ५; सार २३४: १८.
 स्पृष्टो- -नम् त्रिता ५, २१.
 स्पृष्टोयितव्य- -व्यम् प्र ४, ८; सुवा
 ५; ६; ९; -व्ये सुवा ५.
 स्पृष्टोयि- -ता मै ५, ७; कृ १.
 स्पृष्टो- -श्वत् वृ ४, ३, २९; अक्ष
 ४, ६३; पा ३, ५; गौ ५, ८.
 स्पृष्ट- -ष्टः वृ ४, ४, ८; नाप ६, १;
 निह १, २१; -ष्टम् ऐ ३, ११;
 : पक्ष ४; -ष्टानाम् गर ६.
 स्पृष्ट-करण-स्थित- -तः २प्र
 ३५: १७.
 स्पृष्टि- -ष्टे: वृ ४, ३, २९.
 स्पृष्ट्वा ऐ ३, ७; मैत्रि २, ५-८; वृजा
 ४, ७; वृ ४, ६; नाप ३, २८;
 महा ४, ३२; अव्य ७; रुजा ३,
 १; कालि ४०३: १८.
 स्पृष्ट(व्य)>क्या- -क्या नाप ३,
 ५०.
 स्पृष्टुम् वरा २, १३.
 स्पृष्टु- -ष्टा प्र ४, ९; मैत्रि ६, ११;
 त्रिता ५, १; -ष्टुः वृ ४, ३, २, ९.

a) 'गोपर्म' इति पा. १ यनि. शोधः द. । b) 'णम्' इति निशा. १ यनि. शोधः द. । c) 'स्पृष्टते' इति
 अय्या. । d) =राक्षिर्विशेष- । e) कश्चित् वा. क्विचि. द. । f) पा ७, १, ३८ । g) तैश्चा ७, ४, १ । h) 'द्वयते' इति
 अय्या. । i) =युगविशेष-, कादि-मान्त-वर्ण- । j) =स्पृष्टोन्द्रिय- । k) 'द्वन्द्वम्' इति अय्या. संदि. ।

√स्पृह, > हि, स्पृहयन्ति नापठ, ३७.
स्पृह(ह)हा-हा गौ १, ९; महा
३, ३६; पृष्ठ ४^०; गीष्ठ, १४; १४४,
१२; -हाम् नापठ; १संन्या
२, ७९.

/स्फदा^०वधा.)

स्फटिक^{११०} -कः अक्ष ५, ९८.
स्फाटिक-कम् शि ३, १०;
सिचि ३८२: २०; -कानाम् शि
६, २६३.
स्फटिक-कमल-भद्राक्ष-मणि-
मुक्ता-प्रवाल-रुद्राक्ष-कुशा-
प्रस्थि- -स्थिषु वठ ६, ३७.
स्फटिक-धूम्र-बिन्दु-नाद-कला-
नक्षत्र-खद्योत-दीप-नेत्र-सुवर्ण-
नवरत्ना(न-आ)दि-प्र(भ<)-
भा- -भा: मं २, ३, १.
स्फटिक-प्रभ- -भम् ध्या ९७.
स्फटिक-रजत-वर्ण- -णम् दू ३.
स्फटिक-लोहित-दर्शन- -नेन
अक्ष १, १६.
स्फटिक-वर्ण- -णम् ध्या ९३, ६.
स्फटिक-संनि(भ<)-भा- -मा
अशि ५, १३.

√स्फाय

स्फार- -रम् अक्ष २, ३४; ४, २३;
५, १३; -रे अक्ष ४, ७१; वरा ४,
३१०.

स्फिक्^{११०} -स्फिक्चः शु २२.

स्फिक्-विम्ब-जातु- -सुनी वृजा
४, १४.

√स्फुट

स्फुट- -रम् गौ १, २०; ते ५, ९६;
१योत ६८; नापठ, ११; त्रिमा
२, १००; महा ५, १३; अक्ष ३,
५; पाशु २, ३७; त्रिता ५, १^१;

तीर, ४; विरे०; -या: गौ २, १५.
स्फुट-तर- -रम् वरा ३, ५.
स्फुट-ता- -ताम् महा ५, १५७.
स्फुट-प्रकाश- -या: अक्ष १, ५४.
स्फुटी/भू, स्फुटीभवति वरा
५, ४२; स्फुटीभवेत् यो ३, १७.
स्फुटी(ट-उ)क्त- -क्तै: शु ३, ९^१.

स्फोट-

स्फोटा(ट-आ)शमक- -कः तां
५, ५७.

√स्फुर, स्फुरति १योत ११६; शां १,
७, १५; महा ५, ११७; ११९;
१२०; योशि ४, १७; अक्ष १,
१५; २, ४१; त्रिता १, ५१^१; वरा
४, ३०; ५, ६३; स्फुरन्ति महा
३, ५६; १संन्या २, २३; स्फुरसि
अक्ष १५; स्फुर-स्फुर वपं ३१२:
४; व ४५७: २३.
स्फुरण- -णम् त्रिमा २, १२२; १२३.
स्फुरणा(ण-आ)नुपलम्भन- -ने
त्रिमा २, १२५.
स्फुरत्- -रम् अक्ष ४, २६; कठ ७;
-रति शां १, ४; -रत् शु ३, ३;
-रन्तम् मैत्रि ६, २४.

स्फुरन्ती- -न्तीम् शठ ४, ५.

स्फुरत्-तादशा(श-आ)धिछायि-
(र<)-मी- -नीम् विद्या ४.

स्फुरत्-प्रज्वल-संन्वाला-
पूरय- -जयम् योक् ९७^१.

स्फुरन्-मकर-कुण्डल- -लम्
गौ ४८.

स्फुरित, ता- -रम् १योत १०; महा
५, १५२; १५५; योशि १, ८; -ता
त्रिमा २, ६५.

स्फूर्ति-

स्फूर्ति-रूप- -र्येम् योशि १, २०.

स्फुलिङ्ग^१ -ङ्गा: शु २८.

स्फुलिङ्गि(र<)-मी^१ -नीं सुं १, २, ४.

स्म^१ सुं १, १, ४; तै १, ५, १; छां १,
२, १३; ३, १४, ४; १६, ७; ४,
१०, १^१; ६, ४, ५; वृ ४, ४, २२^१;
५, १, १; १२, १^१; ६, २, ७; ४, ४^१;
की २, १; शा ३३; इ १०: २^१;
छाग २४: २; वार; अक्ष १४४^१म्.

१-२स्मर- , स्मरण- , स्मरत्- , स्म-
संन्य- , स्मर्यमाण- , स्मार- ,
स्मार्त- /स्मृ ६.

√स्मि

स्मयमान- -नः छाग २३: १४.
स्मयमान-मुखा(ख-अ)म्बु-
(ज<)-जा- -जा अक्ष १, ९.

स्मित-

स्मित-सु(ख<)-ली- -लीम्
त्रिता १, ८४.

स्मित-संपूर्ण-पञ्च-विध-पञ्चा-
(घ-आ)नन- -नम् म १, १.

स्मिधान- -नः वा ७.

स्मेर-

√स्मेराय्
स्मेरायित- -ती पा ५, ९.

√स्मृ^०वधा.), स्मरति गर्म ३; ४;

मुवा ११; महा ५, १६१; निर १,
२१; व ४६५: ११; गी ८, १४;

स्मरन्ति कौ २, ४५^१; मय २, ३,
४७; ३, १, ४; ४, १, १०; स्मर
इ १७^१; वृ ५, १५, १५^१; स्मरेत्
मैत्रि ४, २; स्मरेत् मै ४, २;

मैत्रे १, ४, १; नापठ ३, २५; ४, ३;
त्रिमा २, १४४; रार २, ४९; ४,
११; योशि ६, ६३; पत्र ३, १;

जाद ६, ७; दाम ७: १६; कलि
४०३: २; शु ८; व ४६२: ४;

a) 'वि:स्पृह:' इति निशा., चान. संटि., 'नस्पृह:' इति अश्या. । b) धा. कर्ष: । c) 'स्पाने' इति अश्या. संटि. । d) स्पृ. १ । e) वा. क्विप्. भवति । f) 'सर्षम्' इति अश्या. संटि. । g) परमस्फुट इति अश्या. । h) 'क्ते: इति क्वाचित्क: निशा. पाठे. । i) 'क्ते इति अश्या. । j) 'लसज्जवा' इति अश्या. । k) द्र. गण. ११२९। l) स्पृ. = अश्व. । m) तीमा १, १७, २ । n) 'क्ते इति शांमा ४, ४ । o) वा ४०, १, १०^१ ।

स्मरेयुः छा ७, १३, १.
 सस्मार वउ ३, २९
 स्मर्यते सी २६; सार २५१: ४;
 २५५: १२; म् १, ३, २३; २,
 ३, ४५; ३, १, १९; २, १७; ४, ३०;
 ३७; ४, २, १४; २१.
 १स्मर- -रः छा ७, १३-१४, १;
 २६, १; -रम् छा ७, १३, १; २;
 -रस्य छा ७, १३, २; -रात् छा ७,
 १३, २; १४, १; -रेण छा ७,
 १३, १.
 २स्मर-
 स्मरा(र-आ)रि- -रे: वपं ३१२:
 २०.
 स्मरण- -णम् सु २९४: ७; -णस्य
 ते ५, ३०; -णात् पे ३, १; अध्या
 ३६; सार २५९: ४; गुणो ४२०:
 १; ४२१: ७.
 स्मरण-मात्र- -त्रेण वि २१.
 स्मरणमात्र-रूपा(प-आ)-
 विर्भावप्रालुर्भावा(त्र-आ)-
 िमिका- -का सी ३४.
 स्मरणमात्र-संतुष्ट- -ष्टाय
 दत्ता २; व ४५६: ५.
 स्मरत्- -रत् छां ८, १२, ३; वृजा ४,
 २९; १योत ८९; नाप ४, ३८;
 ५, १; ३९; अक्ष ५, १३; जाद
 ६, १; गी ३, ६, ८, ५; ६; -रत्त:
 छां ७, १३, १.
 स्मर्तव्य, ष्या- -न्य: त्रिमात्र, १४०;
 म २, १; -ष्यम् ते ४, २१; त्रिमा
 २, १३७; -ष्या त्रिमा २, १३६;
 १३९.
 स्मर्तमान- -णम् म् १, २, २५.
 स्मार- -रम्, -रेण मना २, ७९४.
 स्मृत, त्वा- -तः छां ७, २६, २; गी
 १, १; १०; २६; ३, १; ४, ९; मैत्रि

६, २५; अना २४; वृजा ५, १८;
 १९; वृष्ट २, १६; ते १, २३; ४,
 ३२; नाद १; २^०; ऋषि ५१;
 १योत २०; योशि १, १३७; २,
 ९; नाप ३, ८; ५, ५; ६, ६; ८;
 त्रिमात्र, २९; सीष्ठ; २अवद ३७:
 ४; रार २, २७; ४८; ८०; राउ
 ५, १; अलि १०; ४ष्ठ; अक्ष २,
 ५; ६; दे २०; यो १, १९; जाद
 २, ११; ६, १३; ता २, २; इ १३:
 २२; १६: २३; नाउ १, २१; २३;
 शि १, १०; १९; २, ७; २५; भव
 २, ५४; गी १७, २३; -त्तम् गी
 २, ४; ४, ८८; मै ४, ४, ११; मैत्रि
 ६, १३^१; ३४; ऋषि २; २१; म ३,
 ४; वृजा ३, २१; ते ४, ५५; ५,
 ८९; ९१; १०४; ऋषि ५७; नाप
 ३, ५६; ८४; महा २, ६९; ५,
 १३०; १३३; १संन्या २, ६५; ६६;
 -अक्ष ५, १६; यो १, ६०; त्रिमा
 ४, १६; पं २२; गोउ ५२; ५९;
 वरा ४, ११; ५, ५८; शा १; ऊ
 ६४: २; शि १, २५; ३६; २, ७;
 ४, ४५; ५, १३; ३३; ६, २४८;
 २५१; ३६३; ७, १०९; १४०; गु
 २२; मभ १, ४८; ५, ५; अवि २;
 २१; गी १७, २०; २१; १८, ३८;
 -ता अ १^१; वृष्ट २, २; वृउ ३,
 ५; ष्या ५३; सी २; योचू १७;
 महा ५, २५, योशि ५, १७; ६,
 ५, वरा ४, २; शि २, १९; ना; गु
 २९४: ८; गी ६, १९; -ता: गी
 २, ७; ४, ३२; ४६; १४; लु १५६;
 ष्या ५२; ५६; योचू १६; योशि १,
 २५; १५४; अक्ष ४, ५२; ५, ५०;
 इ १५; १५, ऊ ६४: ५; शि
 ४, २२; ७, १०१; भव ५, २२;

सांका ३८; -तेन इ १२: ४; -ती
 रार ५, ८.
 १स्मृति^{१५} - -तय: वृजा ३, ३; -ति:
 नाप ३, १^१; कृपु ३; -तिभि: वसु
 ३; -तिषु रार १, ३; -ते: सांस्
 ५, १२३; म् १, ३, ६; ३, २०;
 ३८; ३, ४, ४३; ४, ३, ११.
 स्मार्त- -र्तै: भव ४, १; -र्तम्
 म् १, २, १९; ४, २, २१; -र्तै
 जाद २, ६.
 स्मृत्य(ति-अ)नवकाश-दोष-
 प्रसङ्ग- -ङ्ग: म् २, १, १.
 २स्मृति^{१६} - -ति: ऐ ५, २; छां ७, २६,
 २; मैत्रि ६, ३१; मना २, ७९४;
 प्रा ४, १; योत् १, ११; गी १०,
 ३४; १५, १५; १८, ७३; -तिम्
 गी २, ३६; -त्या मना १, २, ३४;
 २, ७९४; अक्ष ५, १३; सांस् २,
 ४३.
 स्मृति-परिशुद्धि- -द्धौ योत् १,
 ४३.
 स्मृति-भ्रंश- -शाल गी २, ६३-
 स्मृति-लक्ष्म- -क्षे छां ७, २६, २
 स्मृति-लिङ्ग- -ङ्ग: १आ ११^१;
 २आ २.
 स्मृति-विभ्रम- -म: गी २, ६२-
 स्मृति-संस्कार- -रयो: योत्
 ४, ९.
 स्मृति-संकर- -र: योत् ४, २०.
 स्मृत्या(ति-आ)कर्मि(न>)गी^१-
 -गी आध ३९५: १०.
 ३स्मृति^{१७} - -ति: राष्ट्र ४, ५७.
 स्मृत्या नाप ३, ८६; योशि ६,
 ६९^{१७}; त्रिमा २, १९; जाद ६,
 ३९; गोउ २^१; वउ ३, ५९; ६, १४.
 स्मेर- ✓स्मेराय्, स्मेरायित-
 ✓स्मि द.

a) भाप. । b) धा. अर्थः इ = कामदेव- । c) ष्यः इति निशा. । d) तैसा १०, ६३, १ । e) ०त्म् इति धान. । f) 'स्वमा' इति धान. । g) 'रियरा' इति अख्या. । h) धा. अर्थः इ = प्रथ- । i) ०तः इति अख्या. । j) तैसा १०, १०, ३ । k) तु. गम्. १५२४अ । l) धा. अर्थः इ = गकार-बीजाक्षर- । m) 'स्मृत्या' इति अख्या. ।

स्व- इ १०: २.
 स्व- त्यद्- द्र.
 √स्वन्द्, स्वन्दन्ते सुं २, १, ९; छां २,
 ४, १; द्, १०, १; वृ ३, ८, ९;
 मना २, १२, १९.
 स्वन्दन्^० - ने गी १, १४.
 स्वन्दमान, ना- ना: प्र ६, ५; सुं
 ३, २, ८; यु २०; ३८.
 स्वृत- √सिच् द्र.
 स्वोन्, ना^० - ना मना १, १०९; ना:
 त्रि २; -नेन मना २, ७७९.
 स्वं^० रार ३, १^b; राष्ट्र ४, ५०^१.
 √स्वस्, स्वसवे गी १, ३०.
 स्वकि^० - स्वय: छां ३, १५, १.
 स्वज^{१०} - स्वजम् शि ७, ९०.
 स्व-चन्दन-तामूला(ल-अ)शुल्-
 रस-सुगमद-कर्पूर-केसर-संव-
 लिप्त - तानि सार २८६: २१.
 स्वङ्-मनु- -नु: राष्ट्र ४, ६४^१.
 स्वष्टम्, स्वष्ट- √स्वृ(परि.) द्र.
 स्वाम^० - म: छां ८, ९, १; २: १०, ३;
 ४; -मम् छां ८, १०, १; ३; -मे
 छां ८, ९, १; २.
 स्वाम्य- -न्येण छां ८, १०, २; ४.
 √स्व, स्ववते हं १९१^१; स्ववति योशि
 ५, ३३; शा ३६; पित्र २, ५; छ,
 ८; स्वन्ति मैत्रि ६, १४; मना
 २, ४०९^३; अस्वत् मैत्रि ६, ३७;
 स्ववत् छां ६, ११, १^१.
 स्ववत्- -वन्तम् योशि ५, ४४; जाद
 ५, ६; वरा ५, २३.

स्वन्ती- -न्ती: वृ ४, ३, १०;
 -न्य: वृ ४, ३, १०; मन्त्रि १७.
 स्वव^० - व वृ ६, ३, १३; प्रा ३-४,
 १; -वेण वी २, ३.
 स्ववा(व-आ)द्या(दि-आ)वार-
 हेतु- -तुना शि ४, २.
 स्वोत्स- -तसा १भा १८; -तसाम्
 गी १०, ३१; -त:सु व्र ३, १०;
 -तस्सु श्वे १, १५; इ १५: ६१^१.
 -तांसि श्वे २, ८; मव ३, २५.
 स्व^० सार २३०: १०.
 स्वम^०
 स्वम-स्व-
 स्वमस्व-पाटलीपुत्रस्थ- -स्थयो:
 सांस् १, २८.
 स्वृ^{१०} - सुवा शि ४, ५१.
 स्वृ-स्वृ-कमण्डलव(लु-अ)क्ष-
 म्ब-हस्व^० - स्ताभ्याम् व
 ४५२: ६.
 स्वृ-स्ववा(व-आ)दि-पात्र-
 -श्राणि शि ६, ६१.
 स्व^० त्रिता ३, १७.
 स्व, स्वा^० - स्व: वृ १, ४, ३; छ, ३, ५; मना
 २, ४६९; स्वम् छे ४, २; छां ६,
 ८, १^१; वृ १, ३, २५^१; ४, १५, ३;
 १, २; वे ६, १०; मैत्रि ६, २७; वृजा
 ३, ३३६, ५; ते १, २९^१; छ, ८०;
 ८१^१; ५, ७३; नाप ७; त्रिभि ५,
 १२; महादि, १७; ३७; पप ४१८:
 २४^१; अध्या २; १९०; ५१; ६४;
 कुं १९; २७^१; वरा २, ४२; २ प्र

३३: २; गोच ६६: १९; २१;
 पा ४, १; मव २, ४८; ३, ९; गी
 ६, १३; स्वम्-स्वम् पाशु २,
 १०; तार २६८: १३; हे छ;
 स्वया महा २, १२; गी ७, २०;
 स्वस्मात् ते ५, ७३; द्, ३६;
 ५२; अध्या २०; स्वस्विन् नाप ५,
 १; २, २०; पै १, ८; योशि १, ८;
 यो ३; स्वस्व ते ३, २४; राष्ट्र १,
 ५; छ, ३२; अक्ष ४, ५२; १अव
 २८; म २, २८; जाद १, १३^१; सु
 २, २, ३८; पित्र ६, २; स्वस्था:
 गी ३, ३३; स्वा व ४६०: ८९^१;
 स्वा: वृ १, ३, १८; ५, ३, १^१; वी
 ४, २०^१; स्वाय क २, ३, १७;
 मैत्रि ६, ८^१; स्वाय-स्वाय सार
 २८३: १२; स्वानम् छां ५, १,
 २; ५; वृ १, ३, १८; ६, १, १^१; २^१;
 ५^१; स्वानि मै २, ९^१; स्वानि-
 स्वानि सार २५४: ७; स्वाम् क
 १, २, २३; सुं ३, २, ३; वृ १, ४,
 ११^१; पप ४१८: १२; नाप ३,
 ७७; छ, ३८९^१; २संन्या १६:
 १२९^१; पा १, १; अक्ष २०९^१; व
 ४६२: १७९^१; साका ३१; गी छ,
 ६; २, ८; स्वाय वृ १, ४, १६; स्वे
 छां ७, २४, १; वृ २, १, १८^१; ६,
 ४, २४; मै २, ४; मैत्रि २, ४; ६,
 २८^१; ३८; वृ ७, १३; त्रिभि
 १०५; स्वे-स्वे जाद ८, ८; हे ५;
 गी १८, ४५; स्वेन छां ८, ३, ४;

a) पा. ३ 'सम (अन्व.)', एव' इति शोध: द्र. । b) तैषा १०, १०, १ । c) =य- । d) वैपरी यद. ।
 o) श्र १, २२, १५ । f) तैषा ३, ७, १९ । g) =बीजमन्त्रविशेष- । h) 'स्व' इति अग्या. । i) 'स्व' इति आन. ।
 j) 'सयुगः' इति आन. । एतदनु गण. (द्र ६२८) सारय. '१मनु->-नु:' इत्यत्र यनि. शोध: कर्ताभ्यः । k) व्यु: ।
 l) 'ती' इति अग्या: । यनि. शोध: द्र. (द्र. निता., आन.) । m) श्र ४, ५८, ६ । n) 'तस्त' इति पा: । यनि. शोध:
 'ती' । o) व्यु: =देवाविशेष- । p) व्यु: =यज्ञपात्रविशेष- । q) द्रस्->मलो. कस. । r) 'सौ:' इति निता. संदि.,
 'सौ' इति अग्या. संदि. । s) वैपरी यद. । इह =आत्मन्-, आत्मीय-, धन-, बीजाक्षरविशेष- प्रथ. । t) श्र १०,
 १८, १ । u) स्वृ^० इति अग्या. । v) 'तस्य' इति अग्या. संदि. । w) श्र १०, ८३, ५ । x) 'स्वाय' इति पा: ।
 यनि. शोध: द्र. (द्र. राती., सात.) । y) पा: 'स्व->स्वानि' इति शोध: द्र. (द्र. मैत्रि २, ६) । z) तैषा २, ५, ८ ।
 a') शी ७, १०, २, ५ । b') तैषा १, २७, १ । c') श्र ८, ११, १० ।

१२,२;३; वृ ४,१,९; गी २,
३४; मै २,२; मैत्रि २,२; अशि
१,१२; ३,७; १योत ५३; नाप
९,१८; त्रिमा १,२; राप् २,१;
प्रा १,१; शौ ५३:९; १०; सं१०;
वट्ट ३१५:७; शि ७, १०८; भव
१,२०; गी १८,६०; स्वेपु वृ १,
३,१८; नाप ३,५१; वरा ३,२५;
स्वै: कौ ४,२०।

स्वेन

स्वेन-वापद्- -व्दात् प्रसु ४,
४,१।

स्व-ञ्ज(व>)षा- -घाभि: सार
२२४: १६।

स्व-क,का- कम् ते ४,८०; रा५,
६; महा ५,७५; सु २,३,४२;
गी ११,५०; -क्या महा २,१७;
-कै: मैत्रि ६,३१; श २२।

स्व-क-तमस- -भस: वरा ३,१२।

स्व-कर्मन्- -र्म सांप् ३,३५; -र्मणा
गी १८, ४६; -र्मभि: श्वे ५, ७;
भव २,२३; -र्मसु सु २९४:
१६; -र्मणि पे १,३०।

स्व-कर्म-निरत- -त: गी १८,
४५।

स्व-कर्म-लिप्सु- -प्सु: शा २०।

स्व-कर्मो(र्म-उ)प्राजित- -तम्
सार २३५: २।स्व-कल्पित- -चतुर्विंशति-तत्त्व-
-चम् मं १,४,३।स्व-काम- -शक्ति- -वार्त्-लक्ष्मी-
-ता(र)ि-आ)य- -घा: रा२, २,
१६१।स्व-काय- -यम् योशि ६, ७८५;
यो ३,१६५।

स्व-कारण- -णम् त्रिवि ३,४०।

स्व-कारणा(ण-अ)ज्ञान- -ने सासा
१,१६।

स्व-कार्य- -यान् मुद्र २।

स्व-कुला(ल-अ)नुस्(प>)पा-
-पाम् नाप २।स्व-कृत-कर्म- -कृत्- -कृत् भ २,
२१।

स्व-क्रिया- -यया भव २,६५।

स्व-क्रीडा- -दया सार २८५: ९।

स्व-गण- -णम् सार २४१: ८।

स्व-गत- -तम् ते ३, ४७; वरा ५,
५८।स्व-गमन-निरोध- -ग्रहण- -णम्
नाप ७।स्व-गुण- -गेन महा ५, ८२; -गी: श्वे
१,३; ५,१२; नाप ९,२; पा २,५।

स्व-गुति- -सये पा ४,१।

स्व-गुह- -रु: शि ७,२३; -रुम् कै
१,५; रुह ३:५; शि ७,७७; -रौ:
कर ३५।स्व-गुरु(रु-उ)क्त-प्रकार- -रेण
यो २,२८।

स्व-गुह- -हे तारा ८३: १३।

स्व-गुहा(ह-आ)धम- -यही-
-हीभ्य: शि ५,७।स्व-गुहो(ह-उ)क्त- -मार्ग- -गेंण
भ १,३।स्व-गुहो(ह-उ)क्त-विधान-
-नेन वृजा ३,११।

स्व-गोह- -हात् भव १,५५।

स्व-हे(हे-अन्त>)न्ता- -न्तया
राप् ४,११।

स्व-चक्षुस- -क्षुषा गी ११,८।

स्व-चतुर्देवा-करण- -प्रवृत्ति-
-त्तिम् पप ४१८: १८।

स्व-चातुर्य- -र्येण सार २२६: ८।

स्व-चित्त-विक- -संख्य- -ख्येन
महा ३,३४।

स्व-चित्त-स्य- -स्यम् श्वे ६,५।

स्व-चिह्न- -है: त्रिवि ६,२५।

स्व-चेहित- -तम् वृजा ६,१।

स्व-चैतन्य- -न्ये ते ३,२५।

स्व-चछन्द- -न्द: मन्त्रि ६; -न्देन
वृ ६।स्व-च्छन्द-नामना(न-आ)लय-
-यै: शि ६, १७९।स्व-च्छन्दो(न्द-उ)पात्त-देह-
-हाय सार २६१: १२।स्व-जन- -नम् गी १,२८; ३,१; ३,७;
४,५; -नस्य शि ६,१७३; -नात्
नी ३,१; -नै: शि ६,१७८।स्व-तन्त्र- -न्त्र: मै २,४; मैत्रि २,
४; ६,२८; ७,२; नि ५५; नाप
३,७७; योशि १; ४३; १५०;
-न्त्रम् मैत्रि ६,३८; श ८; -न्त्रा:
अक्ष ४,११।स्व-तन्त्र्य- -न्त्र्यम् मैत्रि ६,
२३; -न्त्र्यात् योशि १,१५४;
सांप् ३,१२।

स्व-तन्त्र-वाद- -देन व्या९ ३,१।

स्व-तन्त्रा(त्र-अ)स्व-तन्त्र-
स्व-तन्त्रास्व-तन्त्र-स्व- -स्वेन
वृत् ९,४।स्व-तत्त(>) गी ४,२२; मैत्रे २,
११; वृत् ८,१; योशि १,१५३;
अक्ष ४,२६; पाशु २,७; २३;
३६; ४३; अथ्या २९; कठ ७;
१८; रुह ४४; यो १; १४; वरा
२,२६; ह ९; मु२,२,२२; सांप्
२,४४; ३,५८; सिशि ३८२:२;
सांप् ५,५१।

स्व-त-पूर्णे- -णं: शु ३,४।

स्व-त-त्रिय- -यम् वरा २,७।

स्व-त-सिद्ध- -द्धम् अथ्या ६३;
भा ३१।स्व-तेजस- -ज: शि ५, २; -जसा
वृप् २, ११; पा ६, ५; वल ३,
१३; गी ११, १९।

a) =रां। b) =ङीं। c) =हीं। d) =ऐं। e) =धीं। f) =ँ।

g) °क्षमीस्त्ववा° इति निसा:। यनि।
गोष: द. (दु अथ्या.)। h) 'कारणम्' इति निसा:। i) 'तत्त:' इति निसा:।

स्व-दार-निरत- -तः आश्र १.
 स्व-दीर्घा(ई-अ)ङ्- -ङ्गैः राष्ट्र ४,
 १४.
 स्व-दृष्टप(ष्टि-अ)सृत- -तेन सार
 २८१:९.
 स्व-देश- -नाम् मैत्रे २, ११; नाप ७.
 स्व-देह- -हम् ये १, १४; १योत
 १०७; शि ७, १२४; हस्य कुं
 २२; हे योचु ४; पै ३, ३; महा
 २, ६३; यो ३, ३४; या २, १९;
 मु २, २, ७६.
 स्व-देह-मल-निर्मोक्ष- -क्षः
 जाद १, ३०.
 स्व-देहा(ह-अ)वयव- -वेपु या
 २, १९.
 स्व-देहा(ह-अ)मुचि-गन्ध-
 -न्धेय मु २, २, १६६.
 स्व-धर्म- -मं: मै ४, ३१^१; मैत्रि ४,
 ३; नाप ४, १३; गी ३, ३५;
 १८, ४७; संस् नाप ४, १८; गी
 २, ३१; ३३; संस् मैत्रि ४, ३०;
 -मांस् नाप ३, ५७; -मं: मै ४, ३;
 नाप ६, ७; शा २९; गार ४०^५;
 २१; भव ३, २२; गी ३, ३५.
 स्व-धर्म-निरत- -तः जाद ६,
 ११.
 स्व-धर्म-निरत-द्रव्यविय-
 समासृत- -ते शां १, ५.
 स्व-धर्म-हीन- -ना: भव २, ६५
 स्व-धर्म(र्म-अ)चरण- -णम्
 भव ५, १८.
 स्व-धर्म(र्म-अ)तिष्ठ- -मेण मै
 ४, ३; मैत्रि ४, ३.
 स्व-धामन्- -गानि मैत्रि ६, ३०.
 स्व-ज्वाही- -दीभिः वरा ५, १८.
 स्व-नाश- -धेन महा ५, १११.

स्व-निवृत्तप(ति-अ)र्थ- -र्थम् राष्ट्र
 ४, १७.
 स्व-पक्ष-दोष- -पाल त्रम् २, १,
 १०; २९.
 स्व-पद- -दे गी ४ ६३.
 स्व-पदा(द-अ)मु(ग>)गा-
 -गा गी ४ २६^१; -गा: गी ४ ६२^१.
 स्व-परिस्वन्द- -न्दैः महा ५, ११७.
 स्व-पाणि-पादा(द-आ)दि- -दि
 १योत १४०.
 स्व-पितृ- -तरम् पप ४२७:१.
 स्व-पीठ- -ठम् त्रि ७.
 स्व-पुत्र-गृह- -द्विपु आश्र ४.
 स्व-पुत्र-मित्र-कलत्र-बन्धवा-
 (न्तु-आ)दि- -दीन् पई १;
 -दीनि नाप ३, ८६.
 स्व-पुर- -रम् राष्ट्र ४, २९.
 स्व-पूर्ण-धी- -धी: नाप ६, ३६.
 स्व-पूर्णा(र्ण-आ)त्मा(म-अ)ति-
 -रेक- -त्रेण वरा २, ११.
 स्व-पूर्वा(र्व-आ)पञ्चा(ञ-आ)श्रमा-
 (म-आ)चार-विद्या-धर्म-प्र-
 भाव- -वम् तुभ १९.
 स्व-पौरुष- -पम् भव १, ४९.
 स्व-पौरुषै(प-ए)क-साध्य-
 -त्वेन महा ४, १०.
 स्व-प्रकाश- -ता: वृ २, ८; ५, २;
 ३; ९, ३; १०^१; त्रि १०९; सी
 ३१; रा ५, १; व ५, ५०;
 -नाम् वृ ४, ३^१; ८, ५; अया
 ८; मा १; म २, १९; वरा २, ९;
 सार २५३: २; -शा: वृ ९,
 १५; १६; -नो वृ ९, १; १३;
 आयो २७; व ५, ४५.
 स्व-प्रकाश-चिद्दारमन्- -रमनो:
 यो १, ८१.

स्व-प्रकाश-चिद्-आनन्द-
 -न्दम् त्रि २१.
 स्व-प्रकाश-पद- -दे १संया २,
 ५२.
 स्व-प्रकाश-द्रव्यतरव- -स्वे निर्वा
 २९८: ८.
 स्व-प्रकाश-भय- -य: त्रि २,
 १६.
 स्व-प्रकाश-सद्-आ(त्मक>)-
 शिका- -का अक्ष ५, ८९.
 स्व-प्रकाशा(श-आ)श्रम-रूपक-
 -कम् शु ३, ८.
 स्व-प्रकाशा(श-अ)नन्ता-
 (न्त-आ)नन्द-तेजो-शाला-
 जाल- -लै: सि ५, १७.
 स्व-प्रकाशा(श-अ)परीक्षस्व-
 -स्वम् शु ३, ७.
 स्व-प्रकाशौ(श-ए)क-संसिद्ध-
 -द्वे पाशु २, १८.
 स्व-प्र(मा>)भ- -म: सर ३, २७;
 -भम् वा २७.
 स्व-प्रसङ्ग- -ङ्गात् महा ६, १६.
 स्व-फल- -लम् भया ५३.
 स्व-फल- -लम् पा ८, १०.
 स्व-बान्धव- -बात् गी १, ३७.
 स्व-बीज- -जम् रार २, ६७; ३, १;
 -जेन रार २, १००.
 स्व-बीज-संयुक्त- -क्त: रार २,
 ८०.
 स्व-बुद्धि- -द्वया नाप ६, १; महा
 ५, ८१.
 स्व-बुद्धि-संवेदन- -नम् योस् ४,
 २१.
 स्व-बोध- -धम् राधा १, १.
 स्व-भक्त- -क्तानाम् वृ २, १६;
 -क्तय व ३५; गी ४२.

a) तन्मोहाद्यु इति निपा. संटि. । b) °मोभि इति निपा. यनि. च भवि/घ्रा>भवि-द्विप-> -तः (दस्य.) इति च बोधः द. (श्र. अख्या.) । c) सद्यन् 'धर्मस्य' इति मै ४, ३ । d) 'अन्तरिक्षं गता' इति ज्ञान. । e) सप इति निपा. अख्या. यनि. बोधः द. (श्र. अख्या. संटि.; वैश्र. 'अन्तरिक्षपदं गता' इति ज्ञान.) । f) उव. = २३७- । g) °वा इति अख्या । यनि. बोधः द. (श्र. निपा.) ।

स्वभक्त-कर्म-स्वभाव-दु-ख-
नाश-हेतु-तवे सार २७७:३
स्व-भक्ति-
स्वभक्ति-तस(>) शि७, १३८.
स्व-भवन-नम् इ १९:९.
स्व-भार्या-न्याम् वृजा ६, १.
स्व-भाव-व: खे १, २; गौ १, ९;
नाप ९, १; महा ५, ६६; ११२;
सार २४३:२०; २९०:१६;
गौ ५, १४; ८, ३; चम् खे ५, ५;
६, १; गौ ४, ९; ते १, ७; चस्य
सांस् १, ८; वात् अज १, ३८;
सांस् ३, ६१; खेन गौ ३, २३; ४,
८; सार २५६:२३; सांका ५५.
स्वाभाविक-कैमै ४, ४,
१३; मैत्रि ५, १.
स्वाभाविकी-की खे ६,
८; गौ ४, ९; यु ६७; भव २, ४५.
स्वभाव-चिन्मय-यै: तिर ३, ३;
४, ३.
स्वभाव-ज, जा-जम् मैत्रि २,
६; गौ १८, ४२; ४३; ४४; -जा
गौ १७, २; महा ६, ४०; -जाम्
महा ६, ४०; -खेन गौ १८, ६०.
स्वभाव-षस(>) खे ६, १०;
गौ ४, १०; २३; महा ४, ५७;
पाथु २, १०; कः २०; जाद ७,
१; पं ३१; वरा २, ७८; सु २, २,
७४; शि १, १५; भव २, ४८;
सांस् १, ७.
स्वभाव-नियत-नम् गौ १८,
४७.
स्वभाव-परिनिश्चल-ल: त्रिभा
२, १६५; २ भव ३३८: ८१०.
स्वभाव-पथु-शाय: नाप ९, १०.
स्वभाव-प्रभव-यै: गौ १८, ४१.
स्वभाव-संमिद, द्वा-द्व: सार

२२६:९; २७९:३; -द्वा: सार
२२५:१६.
स्वभाव-सिद्ध-द्वौ त्रिवि २, १३.
स्वभावा(व-अ)त्मक-कम् स्व
६१:६.
स्वभावा(व-अ)भिमत्त-तम्
महा ४, १२३.
स्वभावै(व-ए)क-वि(छा>)ष्ट-
स्वभावैकनिष्ठ-स्व-तस्वम्
महा ५, ३४; वरा ४, १०.
स्व-भास-भासा पै २, ४१; यो ३,
२९.
स्व-भूति-स्वै पा ९, ६.
स्व-भेद-
स्वभेद-क-कम् ते ४, ४१.
स्व-मध्यमा(मा-अ)नामिका-
(का-अ)न्तर-रे त्रिता ३, ११.
स्व-मनस-न: महा ४, १०६; भव
३, १६; नस: अज ३, ५; नसा
१ भव २६.
स्व-मर्यादा-दा: सार २६८: ८.
स्व-महिमन्-द्वा सुपू २, ८-१२; १६
स्वमहिम-स्य-स्य: वृज ९, १०.
स्व-माया-यया गौ २, १२; कै १,
१३; त्रिभा २, ६०; या कृ २३.
स्वमाया-वैभव-वाच पं १७.
स्व-मुख-खेन जाद ४, १३.
स्व-मूल-ले वउ ६, ४१.
स्व-यूथ-थम् सार २८६:१८;
-येन सार २२४:१७; -यै: सार
२४२:२३.
स्व-योग-(ज>)जा-जा: योशि
१, १५५.
स्व-योनि-नौमै ४, १; २; मैत्रि
६, ३४; मैत्रे १, ४, ३; ४.
स्व-रजो-रतस-तसो: योशि १,
६८.

स्व-रति-रति: सार २५०:१७.
स्व-रमणा(ण-अ)र्थ-र्थम् सार
२२०:१२.
स्व-रस-सम् सार २४०:११.
स्व-रस-भोग-सुख-सम् सार
२३९:१५.
स्व-रस-वाहिन-ही योस् २, ९.
स्व-राज्-राट् छां ७, २५, २; वै १,
८९; मना २, १३, २९; २, २९९;
तृपू १, ८; ९; वृव २, ८; ७, ३;
८; १४; त्रिवि १०६; त्रिवि २,
१६; महा १, १; १४९; अव्य
६; शा ३०; च २१:६; कृपु
२५; कालि ४०३:७९; शता
१, ६; नापू ३, ६९; वपू २, १.
स्व-राज्य-ज्यम् तै १, ६,
२; छां ३, ६-१०, ४; मैत्रि ६,
३६; कौ ४, २०; ज्याप छां २,
२४, १२; ज्ये वा २, ३.
स्व-राट्-चक्र-क्रम् चक्र ७.
स्व-राट्-विराट्-वपट्-अल-
रूप(प>)पा-पा गार ४०७:५.
१ स्व-रूप-रूपम् वृजा ६, ५;
मैत्रे १, ४, १४; त्रिवि ५९; -
नाप ७; ९, १२; द १५;
त्रिवि ३, ५; ४, ११; पै २, ५३;
महा ४, ५३; ५, ७; तुअ १५;
अज १, ४१; अथा ११; पाथु
२, ३८; त्रिता ४, २२; दे १७;
रुजा २, १; गोव ५३; ६१; वरा
२, ६२; सु २, २, ६०; ति ३१०:
१०; १६; भव ३, ८; -पाव महा
५, ३; योशि १, १७; -ये महा १,
७३; योशि १, १२८; अज १,
५४; योस् १, ३; -येन त्रिवि ६,
२५; सार २२४:१०; २५३:
२०.

a) *वभावनामाहम् इति ध्यान. । b) *वपरनि* इति पा.। यनि. शोध: द. (द्र. संटि.) । c) *वंपद्म्या:
इति अथ्या. । d) *रजनः, रेतसः* इति अथ्या. । e) तैशा १०, ११, २ । f) तैशा १०, २२, १ । g) तस. । h) द्र.
ग. १९, २४ ।

स्वरूप-ज्ञ- -ज्ञः नाप ५, १.
 स्वरूप-ज्ञान- -नेन त्रिवि २,
 १२.
 स्वरूप-तत्त्व(>:) अत्र ५, ७६;
 जाद १०, २; सांस् ५, ४२; योस्
 ४, १२.
 स्वरूप-तेजोमय-शाश्वत- -तम्
 नाप २, १८; महा ४, ७१.
 स्वरूप-ध्यान- -नेन तुअ २२.
 स्वरूप-ध्यान-निरत- -तम्
 मु १, १, ३.
 स्वरूप-परिभ्रंश- -शः महा ५, ४.
 स्वरूप-प्रतिष्ठा- -ष्टा योस् ४,
 ३३.
 स्वरूप-बोध(ध-अ)नुभव-
 -वः वरा २, ३१.
 स्वरूप-ब्रह्मचारिन्- -री म
 ४८: ९.
 स्वरूप-भूत- -तः कृ ३०.
 स्वरूप-लाभ-हेतु- -तुः ससा
 १, २७.
 स्वरूप-विज्ञान- -नम् पाशु २,
 ३४; गु २५.
 स्वरूप-व्याप्त-रूप- -पस्य
 त्रिमा २, १४८.
 स्वरूप-दाक्ति-नियम- -मः
 सांस् ५, ३३.
 स्वरूप-द्रव्य, न्या- -न्यम् योस्
 ३, ३; न्या योस् १, ४३.
 स्वरूप-संधान- -नम् नाप ५, १
 स्वरूप-सिद्धि- -द्धिः कालि
 ४०३: २१.
 स्वरूप-सूर्य- -यै शु ३, ९.
 स्वरूप-सिधति- -तिः मैत्रे २,
 ३०; महा ५, ५; ६; -तिम् १ संन्या
 २, ५८.
 स्वरूप-स्वामिन्या(नी-आ)-
 वेश- -शः सार २४६: ९.

स्वरूपा(प-अ)ज्ञान- -नम् पै २,
 २२.
 स्वरूपा(प-आ)नन्द-तत्पर-
 -रः महा २, १.
 स्वरूपा(प-आ)नन्द-दायि-
 (न>)नी- -नी महा ४, ३८.
 स्वरूपा(प-अ)नुसंधान- -नम्
 नाप १; ५, १; २, २०; -नेन नाप
 ५, ११; ३९; ७; तुअ ७; १ संन्या
 २, १३; ५९.
 स्वरूपानुसंधान-पर- -रः
 नाप ५, १; १ संन्या २, १३.
 स्वरूपानुसंधान-पूर्वक-
 -कम्* नाप ४, ३८.
 स्वरूपानुसंधान-ब्रह्मप्रणव-
 ध्यान-मार्ग- -मैंग पप ४१९:
 १८.
 स्वरूपानुसंधान-व्यतिरिक्ता-
 (क्ल-अ)न्य-शास्त्रा(ख-अ)-
 भ्यास- -सः १ संन्या २, ५९;
 नाप ५, ११^७.
 स्वरूपा(प-अ)वस्थ-
 स्वरूपावस्थ-ता- -ताम् नाप
 ५५.
 स्वरूपा(प-अ)वस्थिति- -तिः
 महा ५, २.
 स्वरूपो(प-उ)पलब्धि-हेतु-
 -तुः योस् २, २३.
 २स्व-रूप- -पः पा ८, ५.
 स्व-लक्षण- -णः अच्या ६: ७.
 स्वालक्षण्य- -वधम् सांस् २,
 ३०; सांका २९.
 स्व-लीला- -लया कृ २४; -लाम्
 सार २४१: ९.
 स्वलीला(ला-अ)र्ध- -धम् सार
 २४९: ६.
 स्व-लोक-दर्शन- -नम् सार २४६:
 १९.

स्व-लोचन- -ने त्रिवि ६९.
 स्व-वंश-वृद्धि-काम- -मजाप२.
 स्व-वचो-व्याघात- -तात् सांस्
 ५, ५५.
 स्व-वपुस- -पुः पदं २; नाप ३,
 ८६; तुअ १३.
 स्व-वर्णा(र्ण-आ)श्रम- -धर्म- -मैंग
 वरा २, २.
 स्व-वश- -शम् त्रिमा २, ११६; -शे
 त्रिमा २, ११७.
 स्व-वशो(श-उ)पाधि- -धिः सर
 ३, १५.
 स्व-वाग्-अग्नि- -ह्नौ आद २^{१६}.
 स्व-वाञ्छा-विविचोग-
 स्ववाञ्छाविविचोग-वत्- -वान्
 राट् ४, ५.
 स्व-विकार- -रम् यो ३, २८.
 स्व-विचार-
 स्वविचार-तत्त्व(>:) महा ४,
 ८५; वरा २, ७२.
 स्व-विध्यु(धि-उ)क्त- -कम् -मेण
 पप ४१८: १३.
 स्व-विध्यु(धि-उ)क्त-क्रिया-
 (धा-आ)दिक- -कम् तुअ ८.
 स्व-विनाश- -शेन अत्र ५, ५३.
 स्व-विवेक- -केन महा २, २.
 स्व-विद्या- -द्याम् वा ७.
 स्व-व्यतिरिक्त- -कम् नाप ३, ८६;
 ६, १७; १ संन्या २, ५९.
 स्वव्यतिरिक्त-वस्तु- -वस्तु-
 रहित-स्मरण- -णम् भा ३३.
 स्व-व्यतिरेक- -केण नाप ६, १; पप
 ४२०: १५.
 स्व-शक्ति- -क्तिम् नि १५; -धया
 यो १, १२.
 स्वशक्ति-तत्त्व(>) महा ५, १४५.
 स्व-शब्द- -शब्दात् तम् १, ३, १;
 -शब्देन व्या ४७; योच् ११.

a) वा. किवि. द । b) ०क्षे इति निरा. १ दनि. शोषः द. (द्र. अग्या.) । c) वत. । d) ०वाणं इति
 निरा. १ दनि. शोषः द. (द्र. अग्या.) । e) = १विद्या- ।

स्वशाब्दो(ब्द-उ)म्मान-
 नाम्याम् असू २,३,२२.
 स्वशरीर- रम् १योत १०८; नाप
 ७; यो १,६६; नात् मै ५,८;
 -रे वञ्च ४,३६; कुंछ; पाशु २,
 ३३; रुह ४९; प्रा २,१७.
 स्वशरीर-व्यतिरिक्त- -कम् नाप
 ९,२०.
 स्वशरीर-स्य- -स्यम् यो १,३५.
 स्वशरीरा(र-अ)भिमान-देश-
 विस्मरण- -णम् नाप ७.
 स्वशरीरो(र-उ)पभोगा(ग-अ)-
 र्थ- -र्थांय पई १९.
 स्व-शाखा(ला-अ)ध्ययन-पूर्वक-
 -कम् नाप १.
 स्व-शाखा(ला-अ)मुगत-मन्त्र-
 -त्रैः नाप ४,१८.
 स्व-शाखो(खा-उ)पसंहरण- -णम्
 नाप ४,३८.
 स्व-शिरस- -ससा वि १.
 स्वशिरस-छेद- -दः महा ४,२६.
 स्व-संज्ञिति- -सौ १संन्या २,५१.
 स्व-संविद्- -विद् निर्वा २९८:१.
 स्व-सखी- -खीभिः मार २७०:२.
 स्व-संकल्प- -ल्पे महा ६,३.
 स्वसंकल्प-वशा- -शात् महा २,
 ७०.
 स्व-समाना(न-अ)धिकरण-
 -द्वय- -व्यः त्रिवि १,११.
 स्व-सामर्थ्य- -र्थम् १योत ७६;
 -र्थस्व १योत ७७.
 स्व-सिद्धासन- -ने त्रिवि ६,२५.
 स्व-सिद्धान्त-व्यवस्था- -स्थासु
 गो ३,१७.
 स्व-मुखा(ग-अ)र्थ- -र्थम् सार

२८५: १७.
 स्व-सुत- -नात् वृत् ४,५.
 स्व-सृष्टि-लीला(ला-अ)र्थ- -र्थम्
 सार २५४: २०.
 स्व-स्य- -स्यः मै २,११; मैत्रि २,
 ७; ते ३,२२; ४,८०; महा ५,
 १२; १०९; ६, ६६; ८२;
 १संन्या २,३६; रुह ५२; यो १,
 ७३; ८३; वरा २,४४; २संन्या
 १५: २; सांसू २,३४; गो १४,
 २४; -स्यम् गौ ३, ४७; शि ६,
 ४०; -स्ये महा २,६; ७४.
 स्वारथ्य- -स्यम् अञ्ज ४,
 ४५.
 स्वस्य-कर्म- -मेण पप ४१८:
 १७.
 स्वस्य-चित्त- -त्तः त्रिगा २,१३.
 स्व-स्थान- -नम् त्रिवि ८,२४; सार
 २८६:१४; शि ६,१४३; -नात्
 यो १,७.
 स्व-स्व-कर्मन्- -र्मणि ह ९.
 स्व-स्व-कार्य- -र्थेषु १योत ७८.
 स्व-स्व-सैजस- -जसा पं १७.
 स्व-स्वभाव- -वः निर्वा २९८:
 १४१; -वम् महा ५,१२१.
 स्वस्वभाव-तस(>) महा ५,
 १५५.
 १स्व-स्वरूप- -पः नात् ४,२११; -
 -पम् ते ५,७२; त्रिवि ३,७; पाशु
 २, ४३; वरा २, २४; २६; सार
 २२०: १२; २३४: १६; २७६:
 २३; -पात् ते ५,७४; सार २२२:
 ३; -ये ते ४, ३२; ५२; -येण
 ते ५, ७४; द १८; जाद १०,
 १३; सार २२४:६; २४८:१२.

स्वस्वरूप-चिन्तन- -नम् त्रिवि
 ४,१२.
 स्वस्वरूप-ज्ञ- -ज्ञः नाप ९, २०.
 स्वस्वरूप-तस(>) अया २७.
 स्वस्वरूप-ता- -तया वरा २,
 ३०.
 स्वस्वरूप-व्यतिरिक्त-माया-
 मय-बुद्धीन्द्रिय-गोचर-जगत्-
 सत्यत्व-चिन्तन- -नम् नि ५१.
 स्वस्वरूपा(प-अ)नुसंधान-
 -नम् अञ्ज १, १८; -नात् वरा
 २, ३२.
 स्वस्वरूपा(प-अ)वशेष- -पः ते
 ५, ७२.
 स्वस्वरूपिन्- -पिणा गो ५४;
 -पिणं गो ६७.
 २स्व-स्वरूप, प्रा- -पः ते ५, ६०;
 -पा यो १, ७९.
 स्व-स्व-विषय-संप्रयोगा(ग-अ)-
 भाव- -वे यो २, ५४.
 स्व-स्व-वेद- -प्रपठन- -नम् म
 ४२: १०१.
 स्व-स्व-स्थान- -ने सि ६, ३३.
 स्व-स्वामि-बध्यमान- -नाः जाया
 १३.
 स्व-स्वामि-भाव- -वः तां ६,
 ६७.
 स्व-स्वामि-शक्ति- -तयोः यो २,
 २३.
 स्व-स्वे(स्व-इ)तर-द्वितीयां-
 (प-अ)प्रा- -सौः पे १, १९.
 स्व-स्वो(स्व-उ)पाधि-लय-
 -यात् पे ३, १; यो ३, २३.
 स्व-हस्त- -स्तेन सार २५०: १९;
 २१; २७१: ९; २८८: ३; ४.

a) 'रस्य इति निता. सटि. । b) स्वे शा' इति धान., अख्या. । c) 'स्वोप' इति अख्या. । d) ना. द्विवि. इ. । e) उप. = २मुन- । f) 'स्यस्य' इति पा.१ यनि. शोषः इ. (द्र. ना.उ.) । g) 'स्वच्छः' इति अख्या. । h) 'स्वस्य' इति अख्या. । i) 'स्वच्छे' इति अख्या. । j) 'स्यः क' इति अख्या. । k) 'स्वच्छाचारस्य' इति निता. ? इति. शोषः इ. (द्र. अख्या.) । l) तथ. । m) 'पम् इति पा.१ यनि. शोषः इ. । n) वच. । o) 'स्वविषयातीप्रयोगे' इति पा.१ यनि. शोषः इ. । p) 'स्वस्वे' इति अख्या. ।

स्वहस्ता(स्त-अ)चित-लिङ्ग-
-ङ्गम् स ३७९ : ११.

स्व-हृद्- -हृदि वृजा ६, ७.

स्व-हृदय- -ये सुमु ३; १८.

स्वहृदया(य-अ)वन- -नम् मैत्रे
२, २६.

स्वा(स्व-अ)श- -शाम् त्रिवि ३,
४-६^a.

स्वांश-भूत- -तैः श २२.

स्वा(स्व-अ)ङ्ग- -ङ्गात् सार २८२ : ८.

स्वाङ्ग-शुमुप्सा- -प्सा योसु २,
४०.

स्वा(स्व-अ)हृलि, ली- -लिभिः
त्रिमा २, ५४; -लीः शां २, ३, ५.

स्वा(स्व-अ)हृष्टा(ष्ट-आ)घ-
(दि-अ)हृली- -लीभिः सौ २, ३.

स्वा(स्व-अ)ती(ती-क)का-
-काः पा ४, ८.

स्वा(स्व-अ)त्मन्- -त्मनः ते ३,
२५; महा ४, ७०; योशि २, २०;

पाशु २, ४६; वरा २, २०; २५;
२७; ४, ३८; ब्रम् ३, ३, ३५;

-त्मना महा ४, ११३; अश्र ५,
९६; ११५; अथ्या ६७; १आ

१२; पाशु २, १५; ४२; ब्रम् २,
३, २०; -त्मनि ते ३, २४^a; नाप

५, १; ६, १२; महा २, ६; ५,
११७; १२०; १८४; योशि ३,
१०; १वेन्या २, ५९; ५५ ४१८:

१९; अश्र ३, १०; ५, ७९; अथ्या
४; २६; १आ २६; पाशु २, १२;

३१; जाद १, १६; ५, १; १०, १०;
पं १६; १७; २३; शि ६, ११३;

-मा काला ३; ते ४, १४; महा ५,
१००; जाया २१; -मानम् वृष

४, १४; १६; वृड २, ८^a; ७, १२;
८, ३; प्या १०५; राउ ४, १; ५,
१; या २०; २६^a; शां १, ७, ४३;

पे ४, ९; अव्य ३; १अव २६;
त्रिता २, ७२; ४, १४; कर् ४१;

जाद ४, ६०; ता ३, १; गोउद ०^a;
वरा ५, ३४; ३९; आथ ३९९ : १९.

स्वात्म-ज्ञान- -नम् योशिं १, ६५.
स्वात्म-ज्योतिस्-

स्वात्मज्योतिर्-मय-

स्वात्मज्योतिर्मय-चिद्-रूप-
वेदिका-स्थान- -विशेष- -पम्
सि ६, २७.

स्वात्म-दौर्दान- -नात् नाप ६, १२.
स्वात्म-नाश- -शाः महा ४, ११५.

स्वात्म-निश्चय- -यम् महा २, २.
स्वात्म-निष्ठा(ष्ठा-अ)शुक्ल-

-लेन तुअ २२^a.
स्वात्म-परिज्ञान-

स्वात्मपरिज्ञानिन्- -नी कृ
५१.

स्वात्म-प्रकाश-रूप- -पम्
१वोत ७; योशि १, ५.

स्वात्म-प्रत्यय-कारण- -णात्
जाद ४, ५२.

स्वात्म-बन्ध-रहित- -तः वर
१, १६; ५, ४२.

स्वात्म-बन्ध-हर, रा- -रः वृ
२, ११; ब्रवि ११०^a; राउ ३, १;

-रा विद्या ४.
स्वात्म-भाव- -वाः सार २५७ : १

स्वात्म-भूत- -ते कर् २४.
स्वात्म-भोग-मृत्प्रा(ति-अ)र्थ-

-थम् शि ६, २४५.
स्वात्म-मति- -तिम् जाद ७,
१३^b.

स्वात्म-मन्त्र- -न्त्रम् ते ३, ५९^a.
स्वात्म-मात्र-

स्वात्ममात्र-ता- -तया वरा
२, २५.

स्वात्ममात्रा(त्र-अ)वचोपक-
-कः ते ३, २४.

स्वात्म-मात्रक- -कः ते ४, ३५.
स्वात्म-योगी, ग-एक-निष्ठ-

-छेयु योशि १, १५४.
स्वात्म-रत- -तः यो १, ७३^b.

स्वात्म-रतिक(वा<)>य- -यः
अश्र २, १०.

स्वात्म-राज्य- -ज्ये ते ३, २५;
४, ३१; ५, ७३.

स्वात्म-रूप- -पम् योशि १, १७;
-पेण कर् ३४.

स्वात्म-लाभ-परावण- -ग्याः
महा ५, ४२.

स्वात्म-लिङ्गा(ङ्ग-अ)र्थक- -काः
सि ५, २०.

स्वात्म-वत् जाद १, १५.
स्वात्म-शुद्धि- -द्धिम् जाद ५,
१३.

स्वात्म-सिहासन- -ने ते ३,
२५.

स्वात्म-मुख- -खः अश्र ५, ९.
स्वात्म-स्थ- -स्थम् वृड ९, ९.

स्वात्मा(त्म-अ)सि- -सौ शि ४,
६५.

स्वात्मा(त्म-अ)तिरेक- -केण
पाशु २, २६.

स्वात्मा(त्म-अ)मन्द- -न्दम् ते
४, ३२; योशि १, १३६.

स्वात्मानन्द-मुख- -खे द १.
स्वात्मानन्दा(न्द-अ)नुभव-

सरङ्गिणी- -ग्याः सि ४, ४.
स्वात्मानन्दा(न्द-अ)नुभव-

विज्ञान-घन- -घनात् -घनप-
तद्- -वव- -नैः सि ६, ९.

स्वात्मानन्दा(न्द-अ)नुभवा-

(व-अ)श्रुत-कलोल-रत्त-
प्रवाह- -हैः सि ५, १७.

स्वात्मा(त्म-अ)राम- -मः ते ४,
७७^a.

a) 'वामा' इति श्रान्. । b) पा. १ वनि. शोधः इ. । c) वस. । d) 'स्वम्, भागमानम्' इति श्राम्वा. । e) भा^o
इति श्रान्. । f) 'स्वेन' इति श्राम्वा. । g) सर्वथ' इति श्राम्वा. । h) भा^o इति श्राम्वा. । i) ट. ग. ५, ५३०७८ ।

स्वाभाराम-ता- -तया महा
५,३२; वरा ४,८.
स्वास्मी/कृ
स्वास्मी-कृत- -ते शि १२९.
स्वा(स्व-अ)रम-कर्तृता- -तया
महा ६,३.
स्वा(स्व-अ)घार(>)रा- -रा योशि
३,२.
स्वा(स्व-अ)धिक- -कम् त्रिवि २,८.
स्वा(स्व-अ)धिष्ठान- -नम् हं ६; ध्या
४३; ४७; ४८; योशु ४; ६; ११;
यो ३,९; १०; योरा ७.
स्वाधिष्ठान-गत- -तः यो १,८४.
स्वाधिष्ठान-चक्र^१- -कम् सौ
३,१.
स्वाधिष्ठाना(न-अ)श्रय- -यात्
योचु १२.
स्वाधिष्ठाना(न-अ)ह्वय- -यम्
योशि १,१७२; ५,८.
स्वा(स्व-अ)धीन-मा(या)>य-
-यः वै १,७.
स्वा(स्व-अ)धीना(न-अ)ग्नि-
-ग्निम् नाप ४,३८.
स्वा(स्व-अ)ध्यासा(स-अ)पनय-
-यम् आक्षि ४२; अध्या ३.
१स्वा(स्व-अ)नन्द^१- -नन्दम् वै २,
४४; कुं २७.
स्वानन्द-वृत्त- -साः मैत्रे १,४,१३
स्वानन्द-मय-
स्वानन्दमया(य-अ)नन्ता-
(त-अ)चिन्त्य-विभव- -वः
त्रिवि १,११.
स्वानन्दा(न्द-अ)नुभव- -वात्
अध्या २८.
स्वानन्दा(न्द-अ)दिष- -ञ्चौ ते
५,७२.
स्वानन्दा(न्द-अ)विभाव-

-चम् सार २५२ : ९; -वाय सार
२४० : १.
२स्वा(स्व-अ)नन्द^१- -न्दः कुं २६.
१स्वा(स्व-अ)नुभव^१- -वः मैत्रे ३,
२४; -वेन वरा २,३०.
२स्वा(स्व-अ)नुभव^१- -चम् महा
५,५४.
स्वा(स्व-अ)नुभाव-
स्वानुभाव-तस(>) महा ५,
८१^१.
स्वा(स्व-अ)नुभूति- -तिः व २२;
-तेः महा ४,५; -स्या महा ४,२५;
अध्या ४; ६४; पाशु २,१७.
स्वानुभूति-रसा(स-अ)वैधा-
-शात् सर ३,२८.
स्वानुभूत्ये(ति-ए)क-चिन्-
स्वानुभूत्येकचिन्-मय- -यः
राज ५,११^१.
स्वानुभूत्ये(ति-ए)क-मान-
-नम् अक्ष ३,२३^१.
स्वा(स्व-अ)न्तद(>)
स्वान्तर-आरमन्-
स्वान्तरात्म-क- -कः योशि
५,३२.
स्वान्तर-विशुम्भित-भानु-म-
पहल-ध्यान-तदाकाराकारित-
परमहा(ता-आ)कार-
स्वान्तविशुम्भितभानु-
मण्डलध्यानतदाकाराकारित-
परमहाकारित-मुक्तिमार्ग-
-गैम् सं २,४,४१^१.
स्वान्तः-सूत्र- -त्रम् पत्र ३,१४.
स्वान्तः-स्थित- -तः नाप ९,२०^१.
स्वा(स्व-अ)न्तर-इन्द्रिय-निग्रह-
-हः निर्वा २९८ : ७.
स्वा(स्व-अ)न्तर-धि- -धिन् ५२७.
स्वा(स्व-अ)न्यत्र अध्या २.

स्वा(स्व-अ)प्यव- -यात् व्रत् १,१,९.
स्वाप्यव-संपत्ति- -रयोः व्रत् ४,
४,१६.
स्वा(स्व-अ)भास- -सम्-योस् ४,
१८.
स्वा(स्व-अ)भिमत्- -तम् महा ४,
८८; पत्र ४१९ : ३; नाप २.
स्वाभिमत्(त-ए)क-गुरु-
समीप- -ये नाप १.
स्वा(स्व-अ)भ्यास- -से १योत ७८.
स्वामिन्^१- -मिन् सं ३,१,१; त्रिता
५,१; वरा २,७०^१; -मिनः व्रत्
३,४,४४; -मिनम् त्रिता ४,५;
-मी गोउ १५५^१.
स्वामिनी- -नी सार २२५ :
१५; -न्याः सार २३९ : २०;
२६० : ५; २८२ : २; २८३ : १४.
स्वामि-भाव- -वेन सार २३९ :
१७.
स्वाम्य- -म्यम् भव २,५८^१.
स्वाम्य(मि-अ)धिष्ठिति- -तिः
सांम् ५,११५.
स्वा(स्व-अ)यत्त- -तम् महा ४,
८९.
स्वा(स्व-अ)र्चा- -चाम् भव १,५५.
स्वा(स्व-अ)र्थ- -र्थः सांका ५६;
-यम् सांम् २,१; -र्थे मैत्रे ४,१३;
मैत्रे ५,१; सु २,२,२२.
स्वार्थ-नाशो(श-उ)धमा-
(म-अर्थे)>र्था- -र्थया महा
५,१०९.
स्वार्थ-संयम- -मात् शां १,७,
५२.
स्वा(स्व-अ)र्ध-भाग- -गान् त्रिधा
२,१^१.
स्वा(स्व-अ)लया(य-अ)न्तिक-
-कम् गोउ ६८.

a) कृत्य इति तात्त्रि. । b) तस. । c) सस. । d) भावितः इति अश्या. । e) ^१स्ये इति निसा.१ यनि.
शोषः इ. (वृ. अश्या.) । f) ^१वरत्र इति पा.१ यनि. शोषः इ. । g) ^१तम् इति अश्या. । h) प्र.१ मिन् (द्र. MW.)
वा आसिन् (पा ५,३,१३६) वा? । i) ^१स्वस्मिन् इति अश्या. । j) स्वार्थे इति निसा. ।

स्वा(स्व-आ)लोक-
 स्वालोक-तस(>): महा ५,
 ८१^१.
 स्वा(स्व-अ)वगम्य- -म्य: वरा २,
 ८१.
 स्वा(स्व-अ)विद्या- -द्याया श २०.
 स्वा(स्व-आ)विर्भाव- -वेन सार
 २७८: ४.
 स्वा(स्व-आ)वेदा- -दोन सार २३९:
 १०:१४; २४०:४; २५४:१८;
 २८१: १३.
 स्वावेदा-अकटा(उ-अ)नुभाव-
 -व: सार २६२: ७.
 स्वा(स्व-अ)व्यतिरिक्त- -क्तान्,
 -क्तानि वृत् २,५.
 स्वा(स्व-आ)श्रम- -मम् शा २७;
 शि ६,१५४; -नाम् नाप ६,१३^१;
 -मे शि ३,१; -मेष्टु मै ४,३; मैत्रि
 ४,३.
 स्वाश्रम-विहित-कर्मा(मं-आ)-
 नुष्ठान- -नम् सांम् ३,३५.
 १स्वाश्रमा(म-आ)चार^१-
 स्वाश्रमाचार-पर- -र: नाप
 ४,३८;५,१.
 २स्वाश्रमा(म-आ)चार^२- -र:
 अन्न १,८.
 स्वाश्रमो(म-उ)क्त-विधि-
 -धिम् सार ४,२.
 स्वाश्रमो(म-उ)क्त-सदाचार-
 विद्वच्-छिक्षित- -त:शां १,५^१.
 १स्वा(स्व-आ)श्रय^१-
 स्वाश्रय-ज्वालित्- -लित्ने या
 २,३१.
 २स्वा(स्व-आ)श्रय^२- -वम् पित्र ४,
 १०.
 स्वा(स्व-आ)सना(न-अ)धम(>):

राप् ५,२.
 स्वी/कृ,स्वीकुर्यात् २कौल १२.
 स्वी-करण- -णम् भा ३५.
 स्वी-कृत-
 स्वीकृत-चैराग्य- -ग्यात् मं
 २,४,३.
 स्वी-कृत्य मं ३,१,४.
 स्वीय-
 स्वीय-व- -स्वेन त्रिवि २,१३.
 स्वे(स्व-इ)च्छा- -च्छया १यौत
 १०९: ११०^१; त्रिवि ४,१४;
 महा ५,१२८; योशि १,४४;
 सार ३,९; शि ६,१८४; २कौल
 ११.
 स्वेच्छा(च्छां-आ)चार- -र:
 निर्वा २९८:१४^१!
 स्वेच्छाचार-पर- -र: १अव
 ३३.
 स्वेच्छा(च्छा-अ)नुसार- -रेण
 त्रिवि २,१४.
 स्वे(स्व-ई)प्सित-स्याग- -रूप-
 स्वेप्सितस्यागरूपिन्- -पिणा
 महा ४,१०.
 स्वे(स्व-ई)प्सित-स्याग- -वेदन-
 -नम् महा ४,८९.
 स्वे(स्व-इ)ष्ट^१- -ष्टम् सार २५०:१०;
 २९२: १७; -ष्टस्य सार २५०:
 १०; -ष्टे सार २५०:१२.
 स्वेष्ट-देवता- -ताम् शां १,५.
 स्वेष्ट-वन्तु-वियोग- -ये शां
 १,१.
 स्वे(स्व-ई)ष्ट^२- -रम् १अव ६^१.
 स्वेष्ट-विहरण- -णम् १अव ६.
 स्वे(स्व-ई)रिन्^१- -री छां ५,११,५.
 स्वेरिणी- -णी छां ५,११,५.
 स्वो(स्व-उ)च्छिष्ट- -ष्टम् सार २४६:

२०.
 स्वो(स्व-उ)द्रेक-
 स्वोद्रेक-तस(>): राप् १,२.
 स्वो(स्व-उ)पकार- -रात् सांम्
 ५,३.
 स्वो(स्व-ओ)जस- -जसा पा ६,३.
 स्व(स्व-अ)च्छ,च्छां- -च्छ: नाप ६,
 ३६; महा २,२७;८२; योशि १,
 ४७; अन्न ५,११५; -च्छम् महा
 ५,५३^१; अन्न ५,६६; १०७; भा
 ३१; शि ६,१००; -च्छया महा
 २,५७; -च्छा महा ६,७३; अन्न
 ५,१०८; -च्छा: महा ६,५९;
 १संन्या २,२६^१; -च्छाम्याम् वृजा
 ४,३१; -च्छाम् अन्न ३,१५;
 -च्छे महा ५,५५; अन्न ५,११३.
 स्वच्छ-ता- -ता १संन्या २,५६;
 अन्न ५,८५; -ताम् अन्न ३,१२.
 स्वच्छ-रूप- -प: ते ४,३३.
 ✓स्वद्
 स्वदन- -नम् महा ६,३८.
 स्वदन-भात्र- -त्रम् महा ४,९.
 स्वादु- -दुं सुं ३,१,१५^१; ऐ ५,१;
 धे ४, ६५^१; शु ३,१; नाउ १,
 ४५^१; भव २, २५^१; -दूनि मैत्रि
 ६, १०^१!; शि ६, ३५.
 स्वादु-लभ- -भ: इ १४: १८.
 स्वादु-परिग्रह- -ह: मैत्रि ६,
 १०.
 स्वाद्य-
 स्वाद्य-स्वादक-मध्य- -ग-
 -नम् महा ६,३७.
 स्वाद्य-स्वादक-सत्वक- -कम्
 महा ६,३७.
 स्वध्या^१- -धया मना २,१२,१५^१; -धा
 प्र २,८; मना २,१५^१; ४५^१; ५५^१;

a) १किं इति अस्या. । b) त्वां इति अस्या. । c) सत. । d) वत. । e) १विच्छि^१ इति अस्या. संदि. ।
 f) १चारस्व^१ इति निमा. १ यनि. शोध: द. (उ. अस्या.) । g) उप. = १ए- । h) पावा ६, १, ८९ । i) वा. किरि.
 द. । j) १च्छस्व^१ इति अस्या. । k) श् १, १६४, २० । l) १दुं इति पा. १ यनि. शोध: द. (उ. तात.) ।
 m) वैप १ यद. । n) श् ४, ५८, ४ । o) तेषां १०, ३, १ । p) तेषां १०, २, १ । q) तेषां १०, ५, १ ।

८१; १७१; मुद्र ३; ए ५; कठ
१; ६१०:११; सुता ३, ४; कथु
२, २; गी ९, १६; -धाम् छां २,
२२, २; मना २, ४०१; -धायाम्
६१४: १८.

स्वधा/कृ

स्वधा-कार--र: -रम् ४५, ८, १
स्वधिति^१ - -१^१ति: मना २, १२, १;
२, ४०; व ४४२: १९; ४४८:
३; ४५२: १०.

✓स्वन्

स्वन्-

स्वन्-व(त्>)ती- ती मैत्रि
६, ५.

स्वन्त्- नन्तम् पा ६, १०; ८, १.

स्वन्नती- न्तीम् पा ६, ४.

स्व(सु-प्र)नुष्ठित- तात् गी ३, ३५;
१८, ४७.

✓स्वप् स्वपति कै १, १४^१; स्वपेत् कठ
३; कथु ३, ३.

स्वपति प्र ४, २; छां ४, ३, ३;

६, ८, १^१; वृ २, १, १७; सुवा ४^१;

स्वपन्ति प्र ४, १; स्वपिपि वपं
३१२: १६; स्वस अठ १५१^१.

स्वपिता वा ५.

सुस,सा- स: मा ५; छां ८, ६, ३;

११, १; वृ २, १, १६; १७; ४, ३,

१४; १९; गी १, १६; मैत्रि ७,

११; कौ ३, ३; ४, १५१^१; १९;

वृ ४, ६; वृ १, ८; सुवा ४;

नाप ८, ११; राउ ३, १; अज १,

३४; धा २०; विद्या ३; वज १,

८; ५, ३५; -सम् वृ २, १, १५;

कौ ४, १८; शि ७, ८४; -सस्य वृ

६, ४, ४; मैत्रि २, ५; महा१, ६४;

११११^१; २शिंत् ८१; मव१,

४३; -सा शी १, ७, ३७; वी१, ४५;

-सा। या २, २२; स्या १८; -सात्

मैत्रि ७, ११; -सात् वृ ३, ११;

-से रजा १, १९; -सिपु क२, २, ८.

सुस-सुद-

सुसपुद-यत् महा ५, ३८.

सुस-यत् नाप ३, ६८.

सुस-दत्त-स्य-पुष्प-

सुसदत्तस्यपुष्प-यत् ते ६,

१०४.

सुसि-सि: यो १, ५६; -से: पै ३,

२; यो ३, ३३; वरा २, ६४; -सी

वरा ३, १०.

सुसि-तत्(>?) यो वृ ७४.

सुप्स(सि-अ)न्त-न्तम् वरा २,

१४.

सुप्सवा वृजा ४, ६.

स्वपत्-यत्: अज ५, १, २७; -यन्

पौ २, ५^१; १योत २३; महा ६,

३४; सिंशि ३८१: ११; गी ५,

८; -यन्त: मना २, ५९१^१.

स्वप्^१-म: वृ ४, ३, ७; गी १, १५;

४, ३७; मै ४, २; मैत्रि ४, २; ६,

२५; महा ४, ४४; ५, ८; १५;

१६-१७१^१; शारी ५; योशि ४,

१०; अज ५, ८७; १०९; अङ्गि

३२; वरा २, ६९^१; वज ३, १०;

-मम् गो^१: छां ८, ६, ३; ११, १; वृ

४, ३, १९; वी१, १४; हं८; म२;

३, १३; अ३; कौ ३, ३; ४, १५१^१;

१९; वृ ४, ६; वृ १, ८; १०;

११; योशि ५, २६; सुवा ४: १५;

सता १, ९; तेष १०; नाप ५, १७;

६, १^१; ८, ११; १५; १७; त्रिमा

२, १०^१; राउ ३, १; वज १, ९; ५,

३५; पिंम ६, ८; १०; गी १८, ३५;

-मा: ऐ३, १२; -मात् प्र ४, १; ९;

-माप वृ ३, १५; म१: -मै क२,

३, ५; प्र ४, ५; छां ८, १०, १; वृ ४,

३, १६; गी २, १३; ४; ७; ३, २९;

३०; ४, ३२; ३३; ३६; ३९^१; ४१;

६१-६३; कै १, ११; म १;

२; वृ २, १; नाद २३^१; यो वृ

७४; नाप ४, ९; ५, ५; ६, १; योशि

४, ११; पप ४१९: २२; पम २;

यो २, २२; वरा १, १; स्व ६१:

१७; सार २४९: २३; २७८:

२०; २१; शि ७, ७; -मेन वृ ४,

३, ११; -मेपु छां ५, २, ८.

स्वम-कर्मन्-

स्वमकर्म-वत् अप्या ५०.

स्वम-कलित- -त्: पै २, २८.

स्वम-काल- -ले नाप ५, १.

स्वम-चारिन्- -री मैत्रि ७, ११.

स्वम-जगत्- -गत् निर्वा २९७:

११.

स्वम-जागर- -राम्याम् सां ३,

२६.

स्वम-जागरित-स्थान- -न्ने गी

२, ५.

स्वम-जामत्^१- -प्रत् महा^१, ८;

१८१^१.

स्वम-ता- -ता योशि ४, ११.

स्वम-तुरीय^१- -व: पप ४१९: ३०

स्वम-मुल्य- -रुवान् त्रिपि ५, ४.

स्वम-तैजस^१- -स: पप ४१९:

२९.

स्वम-ट्- -ट् गौ ४, ६३.

स्वमट्-चित्त- -त्तम् गी

४, ६४.

स्वमट्चित्त-ट्-ट्-

-इया: गौ ४, ६४.

a) तैत्रा १०, ६, १। b) तैत्राया १०, ६७। c) तैत् ४, २, ९, ६। d) वैप१ यद.। e) ऋ ९, ९६, ६।

f) *पिपि इति आन., अख्या.। g) तैत्रा १, २७, २। h) 'पुरुष:' इति शांखा ६, १५। i) गा ३४, १। j) 'स्वरूपम्'

इति अख्या.। k) तैत्राया १०, ५९। l) 'स्वप्नयवा' इति आन., अख्या., शांखा ६, १५। m) न. प्रयोग: द.।

n) 'मजा इति अख्या संदि.। o) 'म: इति अख्या.।

स्वप्न-रुह- -रुह्ते ६,८८.
 स्वप्न-देह- -हः नाद २४.
 स्वप्न-धी-गम्य- -भ्यम् भव २,
 ४३.
 स्वप्न-निदर्शन- -ने छां५,२,८१.
 स्वप्न-निद्रा-ज्ञाना(न-आ)-
 लम्बन- -नम् योम् १,३८.
 स्वप्न-निद्रा-युत- -ती गौ १,
 १४.
 स्वप्न-प्राज्ञ^१- -ज्ञः पप ४१९ः
 ३०.
 स्वप्न-मय- -यः गौ ४, ६८.
 स्वप्न-मात्रा-चतुष्टय- -यम्
 पप ४२० : २.
 स्वप्न-माया- -ये गौ २, ३१.
 स्वप्नमाया-सरू(प>)पा-
 -पा गौ १, ७.
 स्वप्न-वल् गौ ३, १०; त्रिवा २,
 १६५; स्क ३; अक्षि ३१; वरा
 ४, १२; २ अथ ३३८ : ७.
 स्वप्न-वर्तन- -नम् त्रिवा २,
 १५०.
 स्वप्न-विध^१- -श्वः पप ४१९ः
 २९; वरा ४, १.
 स्वप्न-वृत्ति- -त्तौ गौ २, ९.
 स्वप्न-संगम-संनिभ- -भम्
 भव १, १९.
 स्वप्न-स्थ-राज्य-भिक्षा-
 -श्राभ्याम् वरा २, ५८.
 स्वप्न-स्थान^०- -नम् वृ४, ३, ९.
 स्वप्नस्थान-गत- -तः नाप
 ८, ९.
 स्वप्न-स्थान^०- -नः गां४; १०;
 वृ५ ४, ५; वृ४ १, ७; २, ६; राज
 ३, १; विद्या २, १; वज १, ९.
 स्वप्ना(प्र-आ)दि-
 स्वप्नादि-चतसृ- -चः पप

४१९ : २२; नाप ६, १.
 स्वप्नादि-चतसृ २, २, २९.
 स्वप्ना(प्र-अ)न्त- -न्तम् क २,
 १, ४; छां ६, ८, १; वृ ४, ३, १८;
 -न्ताय वृ ४, ३, १७; -न्ते वृ ४,
 ३, १३; ३४.
 स्वप्ना(प्र-आ)भ- -भम् अल५,
 ८७.
 स्वप्ना(प्र-अ)वस्था- -स्था ध्या
 ९३, १२; पै २, ४०; -स्थायाम्
 नाप ५, १; पप ४१९ : २४.
 स्वप्नावस्था-मध्य- -ध्ये
 ध्या ९३, १२.
 स्वप्ना(प्र-अ)वस्थान-
 स्वप्नावस्थान-सुसुप्तिदशा-
 (शा-अ)धिष्ठापि(न्>)नी-
 -नीम् विद्या ३.
 स्वप्नावस्थान-स्थिति-रू-
 (प>)पा- -पाम् विद्या २.
 स्व(प्न्य>)प्या- -प्यया वृ
 २, १, १८.
 स्वप्न्य^१-
 √स्वप्न्य, स्वप्न्येव ते४, ३२^०.
 स्वाप-
 स्वापा(प-अ)भ्याकृत- -तयोः
 यो १, ८१.
 स्व्यमान^१ आबो १.
 स्व(तु-अ)मृत- -तम् तै १, १०, १;
 नाप ४, ३८५^०.
 स्वयम्^१ क १, १, २३; प्र ३, ५; सुं ३,
 २, १०; तै २, ५, १; वृ ४, ३, ९^१;
 गौ २, १९; छ, ८१; ८९; मै
 ४, ४, ९; मैत्रि ६, ३४; अना
 २९; अ ३; स्वयम्-स्वयम् सार
 २४० : १.
 स्वयं-रति- -तिः ते ४, ५२.
 स्वयं-वर-कक्षणी^१- -णी व २०.

स्वयं-कल्पित-तन्मात्रा-जाला-
 (ल-अ)भ्यन्तर-वर्तिन्- -तिं
 महा ५, १२९^१.
 स्वयं-जेनात्सु- -तिषे पा ४, १.
 स्वयं-ज्योत्सु- -तिः वृ ४, ३, ९^१;
 १४^१; हं २१; ससा १, २५; ते
 ३, २३; छ, ५२; मवि १०६; नाप
 ८, २०; त्रिवि १, ११; नाउ १,
 १८.
 स्वयंज्योतिः-प्रकाश- -शः नाप
 ९, २०.
 स्वयंज्योतिरु-महा(अ-आ)-
 कार- -रः नाप ८, २०^१.
 स्वयंज्योतिः-स्वभाव- -वे पाशु
 २, १५.
 स्वयंज्योतिः-स्वरूप- -पम्
 अक्ष ४, ३६; पाशु २, ३३; रुह
 ४९.
 स्वयं-धीर- -राः क १, २, ५^१; सुं १,
 २, ८; मैत्रि ७, ९.
 स्वयम्-अधि(क>)का- -का सता
 १, ४०.
 स्वयम्-भारमन्- -त्मा ते ४, ३५.
 स्वयम्-ईर्ष- -रः वृ४ २, ८.
 स्वयं-प्रकाश- -शः अ ३; -नाम्
 त्रिवि ७, १७; वरा २, १२; सि
 ६, ११.
 स्वयंप्रकाश-मय- -यः त्रिवि १,
 ११.
 स्वयं-प्र(भा>)भ- -भः अप्या११;
 जाद५, १३; सु २, २, ७५; -भम्
 ते ६, ३५; नाप ६, ९; वरा २,
 २९.
 स्वयं-भाव-रहित- -तम् सता १,
 ११^१.
 स्वयं-भाव-विषमि^१त- -तः ते ५,
 ७३.

a) तत. । b) वत. । c) ने इति पा. ३ यनि. शोषः द. । d) तु. गण. वृ६११d । e) प्ये इति अख्या. । f) पा १
 √स्व>पयमान-> -न इति शोषः द. (तु. अ. ९, ११२, ७) । g) तैसा ७, १०, १ । h) अथय. वै११ वट. । i) स्वक^०
 इति अख्या. । j) वैदु. शं. पदद्वयमिति । k) श्लाकाः इति निगा. १ यनि. शोषः द. (तु. अ. ११) । l) भाषाभाषे इति भान. ।

स्वाहा(हा-आ)धित^० - -तः गो११५.
 स्वाहा-स्वधा- -धाम्याम् सी ३७.
 स्वियद् ई १; क १, १, ५; छां १, १०,
 ४; घृ ३, १, १; २, १०; ५, १२,
 १; ह १५१०; सार २, ७१०; षपू
 २, ३.
 √स्विद्, स्वदते छां ६, २, ३.
 स्वद^० - -दः तै १, ४१; शां १, ७, ३;
 महा १, १; च २० : ३; -दम् ते
 ६, ७.
 स्वद-ज^० - -जम् च ५; -जाः नापू
 ५, २२; -जान् गी ७, ६३; ६५;
 -जानि ऐ ५, ३; -जानाम् त्रिधा
 २, ५७.
 स्वद-जनन- -नम् योचू १०५.
 स्वद-दुर्गन्धता- -ता १योत
 ५७.
 स्वद-बिन्दु(न्दु-उ)हसन्-मु-
 (ख>)खी- -खीम् रा ४२४ :
 २१.
 स्वद-मूत्र-जल-रक्त-वीर्य-रूप-
 रस-पुरीया(प-आ)दिक- -कम्
 शा १, ४.
 स्विय(छ-श)ष्ट^० - -ष्टम् वृ ६, ४, २४; मना
 २, ७११०.
 स्विय-कृत् - -कृत् वृ ६, ४, २४; म
 १, ३; -कृतम् बुजा ३, १६; -कृते
 मना २, ६७१०; २संन्या १६:९.
 स्वीकरण- , स्वीकृत- , स्वीकृत्य,
 स्वीय- -स्व- द.
 √स्वृ, >स्वारि, स्वर-स्वर वष्ट ३५:८.
 स्वारयन्ति शी ५३ : २०.
 स्वर^० - -राः तै १, २, १; छां १, ३, २;
 ४, ४; ८, ४, १३, २; वृ १, ३, २६;
 मना २, १२, ३१०; शु ३, १८१०;
 रार ५, ४; पं १; २प्र ३४:६; नाउ
 १, ५१०; गार ४०६:१०; -रम् छां
 १, ४, ३; ५; घृ १, २, २५; मैत्रि
 ७, ११; त्रिता ५, ७; पं ३; -रस्य
 छां १, ८, ४; -राः छां २, २२, ३;
 ५; घृ ५, ८; ध्या १६; १योत
 १३४; त्रिभि ७, १६; योचू ७४;
 रार ३, १; योति ६, ५७; अक्ष ३;
 पं २; गोच ६६ : १५; षपू ३, १;
 -राणि सार २२३:२१; -रात् पं
 १५; सूता २, १८; -रात् रार ३,
 १; रा४, ४४; षपू ३, १; -रेण
 त्रिभि ७; त्रिता ५, ७; अवि ७;
 -रेषु छां २, २२, ३.
 सौवर- -रः वृ २, ५, ९.
 स्वर-धीज- -जैः व ४३५ : १.
 स्वर-मध्य- -ध्यम् त्रि १०.
 स्वर-मन्त्र-पुराण- -णानि योशि
 ६, १२.
 स्वर-मात्रा- -त्रया २प्र ३२ :
 १०; १२; १५.
 स्वर-यत् - -यन्तम् वृ १, ३, २५.
 स्वर-विशेष- -पैः नाप १.
 स्वर-वेदा(द-अ)भि-गुण- -णान्
 रार १, ७.
 स्वर-व्यञ्जन-भेद- -देन हृ १४.
 स्वर-संयोग- -गम् रार ५, ५.
 स्वर-संप(स>)धा- -ध्या वृ
 १, ३, २५.
 स्वर-सौष्टव- -वम् खे २, १३.
 स्वरा(र-आ)ष्य- -ष्येन योशि
 ३, ५.
 स्वरा(र-आ)घ- -घम् व ४.
 स्वराघ- -रत् छां १, ५, १; ३.
 स्वैच्छ- , स्वैष्ट- , स्वैर- , स्वैरिन्-

स्वीच्छष्ट- , स्वैष्टेक- , स्वोप-
 कार- , स्वौजस- -स्व- द.
 ह
 ह-कार- -रः योचू ८३; -रम्
 ध्या ९७; त्रिभि १६; -रेण ध्या
 ६१; योचू ३१; योशि १, १३०;
 १३३; ६, ५३.
 हकारा(र-अ)क्षर- -रम् त्रिता
 १, ३८.
 हकाराक्षर-भासुर- -रम्
 १योत ९८.
 हकारो(र-उ)परि १योत ९९.
 ह-य-व-र-ल-
 हयवरल-कार-
 हयवरलकारा(र-आ)-
 लय- -स्यम् जाद ८, १.
 ह-स-क-ल-र-डां आय ३९९:८
 ह-स-क-ल-र-डां आय ३९९ :
 ८.
 हसकलरी वपं ३११ : ४.
 ह-स-ख-क्रं त्रिता ३, १५.
 ह-स-ल-भ्युं आय ३९८:१२.
 ह-सं त्रिता ३, १६.
 हा(ह-आ)दि-विधा- -द्या व ७.
 हं शु १, १८; आय ३९६:३; व
 ४२८ : १; हंषो ५.
 हं-कार- -०२ अक्ष ५.
 हं के १, २; क १, १, १; ४१०; प्र १,
 १; सुं १, १, ३; मां ९; ऐ ३,
 ३-९; वृ १, २, १; खे २, १६१०;
 ग २४१.

१०, ६३, १। f) तैआआ १०, ६७। g) यप्र. वैप१ यद.। इह =उदात्तादि-, अवर्णादि-, कण्ठसद-, प्राण- प्रय.।
 h) तैआ १०, १०, ३। i) 'सर्वाण' इति अच्चा. संटि.। j) =१वर्ण- वा बीजमन्त्रविशेष- वा। k) 'परारव' इति
 अच्चा.। l) 'क्षत्रे' इति अच्चा.। m) 'सौः' इति निसा. संटि., 'खी' इति अच्चा.। n) =बीजमन्त्रविशेष-। o) तैआ
 ३, ११, ८, १। p) मा ३२, ४। q) उ. गण. पृ६३०६।

a) पूष. =माया- इति उच.। b) अक्षय. वैप१ यद.। c) ख ८, १००, १०। d) उप. =२इष्ट-। e) तैआ
 १०, ६३, १। f) तैआआ १०, ६७। g) यप्र. वैप१ यद.। इह =उदात्तादि-, अवर्णादि-, कण्ठसद-, प्राण- प्रय.।
 h) तैआ १०, १०, ३। i) 'सर्वाण' इति अच्चा. संटि.। j) =१वर्ण- वा बीजमन्त्रविशेष- वा। k) 'परारव' इति
 अच्चा.। l) 'क्षत्रे' इति अच्चा.। m) 'सौः' इति निसा. संटि., 'खी' इति अच्चा.। n) =बीजमन्त्रविशेष-। o) तैआ
 ३, ११, ८, १। p) मा ३२, ४। q) उ. गण. पृ६३०६।

हंस^१-स-स^० हंष्टः ध्याद् २; प्रविद् २; ३; ३४; ७८; योच् ३१; योशि १, १३१; ६, ५४; -सः क२, २, २४^०; छां ४, १, २; ७, १, २; ब१ १, ६; ३, १८; ६, १५; मै ५, ८; मैत्रि ६, ८; ३४; ७, ७; हं १०; मना २, १२, २४^०; २, ४-४^०; म१^०; वृष्ट ३, ६; वृष्ट २, १८; छु १, १८; छु २२; तै १, ४; ४, ३१; प्रवि २१; ३४; ६०^१; ६१^१; ६२; ६३; ७२; नाप ४, १४; १, १; ६, १; ९, ५; निर्वा २९; ७; योच् ८२; ९३; त्रिवि ७, ३१; ४१; ४५; योशि १, १७१; ५, ७; ६, ३५; तुल ७; १संया २, १३; पप ४१९; ११; अस्ति १^०; पाशु १, १२^१; १३^१; १५; १७^१; २१; २५; ३२; २, ३^१; ५; पम २^१; त्रिता १, ४२; ४, २६; २८; ३५; मवा ६; वरा ५, ५२; ५५; शा ११^१; दत्ता १, २; सु १, १, ३१^१; चा १२; वि ४; वा २४; म ४९; १५; सूता ६, ३; छु ८१; व ४६३; १८; हंपो ४; ६; ८; ९; ११; १२; १५; १७; २१; वपू २, ३४^०; भव २, ४; -सम् छां ४, १, २; मैत्रि ६, १५; हं १३^१; मन्त्रि १; ८; प्रवि २०; ६६; योशि ६, २०; पाशु १, २६; योरा ११; चू १; ८; -सस्य हं ३; नाप ५, १^१; ७^१; पाशु १, २०; वरा ५, ५४; -साः छां ४, १, २; मि ५; आध ४^१; -से हं ८^१; नाप ४, २३; -सेन हंपो ३. हंसी-सी शु ५०; -सीनाम् सार २६६; २१; २८२; ३. हंसी-हंस-साः सार २६४; १०.

हंसः

हंसः-सोहम् सू २.
हंसःसोहं-मन्त्र-म्यौ त्रिवि ७, ४५.
हंस-कला-ला सौ ३, १.
हंस-काली-लीम् कामे ५.
हंस-क्षीर-हंसक्षीर-वत् सांस् ४, २३.
हंस-नाम(न>)ना^१-ना सार २४२; २१; २६३; १.
हंस-ज्योतिस्-तिः त्रिवि ६४; पाशु १, ३२.
हंस-व-वम् तुभ ६.
हंस-दीक्षित-तः कामे १४.
हंस-न्यास-सः सूता ३, १२.
हंस-परमहंस-सयोः नाप ७^१.
हंसपरमहंस-निर्णय-यम् हं ४.
हंस-प्रणव-वयोः पाशु १, १९.
हंस-मन्त्र-मन्त्रम् त्रिवि ५९; ६५; त्रिवि ५, १२.
हंस-म(य>)यी-यी वपू २, ३.
हंस-मथूरा(र-आ)वि-दयः सार २५३; १६.
हंस-युग्म-ग्मानि सार २२२; १६.
हंस-यूथ-थानि सार २२८; ४.
हंस-योग-विचक्षण-याः नाप ५.
हंस-रूप-हंसरूपि(रु>)णी-णि व ४३७; २.
हंस-वत् ते ६, ९२.
हंस-व(रु>)णी-णी का १२; नार १०.
हंस-वधा-धाव् हं १५.
हंस-वाह-हंसवाहि(रु>)नी-नी शां १, ६; गार ४०६; १५.
हंस-विद्-विद्ः म ४९; १६.
हंस-विषा-षाम् त्रिवि २६; २८.

हंस-पोडा-न्यासिद्-सी हंपो १.

हंस-सारस-यूथ-थानि सार २२१; १८.
हंस-सूत्र-त्राणि पाशु १, २३.
हंससूत्र-चर्थ-र्याः पाशु १, १९.
हंस-हंस-साय व ४६३; १५.
हंसा(स-आ)ह्य, ह्या-ह्यः पाशु २, २; -ह्याम् त्रिवि २६.
हंसा(स-आ)चार-रः निर्वा २९; ७; ७
हंसा(न-आ)रमक-कम् ध्या २४.
हंसा(न-आ)रम्-हंसारम-मालिका-वर्ण-व्रधा-काल-प्रचोदित्-ता पाशु २, १.
हंसा(स-आ)रूढ, दा-दः व ४४२; १२; दा गार ४०६; १८.
हंसा(स-आ)रु-प्रणय-ध्यान-नम् पाशु २, ६.
हंसि(रु>)नी^१-नी व ४३५; १२; -नी व ४२६; ५.
हंसे(स-ड)ति-वर्ण-ह्य-येन पम २.
हकार-, हंकार- १६ ६.
√हट्(वीसी)
हाटक^१-के नापू ५, ३१.
हाटक-कोटि-टयः सार २८१; २२.
हाटक-जटित-मणि-ज्योत्स्ना-स्त्राभिः सार २८४; १२.
हाटक-भूमि-मिथु सार २८१; २२.
हाटक-मणि-हाटकमणि-सचित-नानि सार २७०; २२.
हाटकमणि-जटित-नानि सार २८४; ६.
हाटकमणि-ज्योत्स्ना-स्त्राभिः सार २६५; ९.

अ) मया. वीपरी यद. । इह = मराल- , सूर्य- , संन्यासिविशेष- , उपनिषद्विशेष- , बीजमन्त्रविशेष- प्रत्य. ।
b) बीजमन्त्रानुकरणम् । c) श्रु ४, ४०, ५ । d) 'हिंसा' इति श्रान्त. । e) 'जन्म' इति निता. संदि. । f) 'सत्य'पयो^१ इति श्रम्या. संदि. । g) तु. गपू. ४१३६० । h) 'सः' इति निता., श्रम्या. संदि. ।

स्वयम्/भू

स्वयं-भु- -सु घृ २, ६, ३; ४, ६, ३; ६, ५, ४; मना २, १५९^१.

स्वयं-भू- -भुवः पिम २, ८;

-भुवम् पाशु १, २; २३; गार ४०५; २; ३; -भुवा लु २; महा ४, ५०; गु १; -भू ई ८; क २,

१, १; मना २, ७९९^१; ए १३;

पाशु १, १; ३; ३२; गार ४०५;

४; व ४६०; ५९^१.

स्वायंभुव- -वाः अरु १, १९^१.

स्वयं-भूय अथवा ८.

स्वर⁽¹⁾ छां २, २३, २; घृ ५, ५,

३; ४; मै ५, ५; मैत्रि ६, ५; कौ २, १४^३;

अशि ६, १८९^१; घृ ४, ११;

ते ६, २०; श्यां ११; योच ८५;

ए ३१^१; अरु ३, १९^१.

स्व.पति-

स्वःपति-स्व- -स्वम् वपु १, १.

स्वर-पति- -तिम् गी २, २०.

स्वर-दत्ता- -दत्ताम् अशि ४, २१९^१.

स्वर-निर्गो(त>)ता- -ता पाशु १,

२४^१.

स्वर-यात- -तम् शि ७, ८२.

स्वर-लोक^१- -कः गु १३; -कम् वपु ५, १६; वट ५, १२.

स्वर्लोक-ज्ञान- -नम् शां १, ७, ५२.

1

स्वर-, स्वरत्- √स्वृ द्र.
स्वरदाभ्यनानातन्त्रीस्वरन्तुत्य-
नीतयादिश्राणि^१ २प्र ३३: ६.
स्वरेन्द्रियैः^१ ते ५, ८६.
स्वर्ग^१ -गं: नि ९; ३३^१; ९^१; ते ६,
११^१; अरु २, १९^१; पिम १,
१५^१; ९^१; गौम् छां १, ८, ५^१; २,

२२, २; ३; ११, ६; ८, ३, ३; ५; घृ ३, १, ६; ४, ५, ८; ५, ३, १; अशि १, १; ते २, २३^१;

मु २, १, १; इ १६; २१; च २१; १५; शि ४, ५६; ६, २८०; रा ४२३; १८^१;

गी २, ३७; गंस्व छां ३, १३, ६^१;

मैत्रि ७, ८; कौ १, २; -गांश्च इ १२; १०; -गांश्चौ २, १५; -गं के ४, ९; क १, १, १२; ऐ ४, ६; ५, ४; कौ ३, २; १योत १०९;

आवो १; अदे १३; शि ६, ८७;

भव १, ७.

स्वर्ग-काम- -मः मैत्रि ६, ३६.

स्वर्ग-द्वार- -रम् गी २, ३२.

स्वर्ग-निवासिन्- -सिनाम् गी २, ८.

स्वर्ग-पर- -राः गी २, ४२.

स्वर्ग-भू-पाताल- -छानि विता १, २.

स्वर्ग-भोग- -गम् रा ४२४; १८.

स्वर्ग-मोक्ष-जिगीषा- -पया शि ५, ३९.

१स्वर्ग-लोक^१ -कः नाप ५, १;

१संन्या २, ५९; गार ४०५; १५;

-कम् भ २, २५; गी ९, २१; के क १, १, १२; १८.

स्वर्गलोक-काम- -मः भ २, २५.

स्वर्गलोक-व्यवस्थि(त>)ता- -ता गार ४०६; २३.

२स्वर्ग-लोक^१ -काः क १, १, १३.

स्वर्ग-वासिन्- -सिनाम् कृ २५.

स्वर्ग-संस्वाव- -वम् छां १, ८, ५.

स्वर्गा(र्ग-श्रा)घ- -घम् राउ ५, ११.

स्वर्गा(र्ग-श्रा)नन्द- -न्दात् सार २४९; ६.

स्वर्गा(र्ग-श्रा)पवर्ग- -गंघोः शि ७, १२०.

स्वर्गापवर्गा(र्ग-श्रा)र्ष- -धम् महा ५, १६३; -र्षं शि ७, १.

स्वर्ग- -व्यः क १, १, १९; क १; इ १०; १३; भव ४, १५; कथु २, २; -व्यम् क १, १, १३; १४.

स्वर्ण^१ - -णम् राता १, ३३^१.

स्वर्ण-कार^१ - -रैः योदि १, १५५.

स्वर्ण-चक्र^१ - -क्रे रा ४२६; १.

स्वर्ण-ज>)जा- -जाम् योद, ४४.

स्वर्ण-ना- -ता १योत ७४.

स्वर्ण-प्र(भ>)भा^१ - -भा सौ १, ३.

स्वर्ण-प्राकार(र>)रा^१ - -रा सौ १, ३.

स्वर्ण-मण्डप- -वे राधा २, ३.

स्वर्ण-माला^१ - -स्वर्णमाला(रु>)नी^१ - -नी सौ १, ३.

स्वर्ण-रुचिर-तनु- -तनुम् रा २, १००.

स्वर्ण-वर्णा(र्षी-श्रा)म- -भम् रा २, १०४; १०६.

स्वर्ण-विकार- -रेषु ससा १, ३३^१.

स्वर्ण-सिंहासन-मध्य-कमल- -सं(स्थ>)स्था- -स्थाम् पी ४२१; ५.

स्वर्ण-स्तेय- -न्यात् रा ३६; रा ५, १७; सुद्र ४; १भव ३३;

भ १, ११^१; २, २२; कलि ३; वरा ५, ७६; नाउ ३, ७; स ३८०; १.

स्वर्णस्तेय-मुरारान-मुत्तल्पा- (त्प-श्रा)युव- -तानि राउ ५, ८.

स्वर्णस्तेयिन्- -यी वि ३३.

स्वर्ण-स्फाटिक-वैद्युम- -मम् स ३७८; ४.

स्वर्णा(र्षी-श्रा)ण्ड- -ण्डम् राधा १, ५.

a) तैत्ति १०, १४, १। b) तैत्ति १०, १३, १। c) अथ १०, ८३, ४। d) तैत्ति १, २७, २। e) तु. टि. सुवद। f) तैत्ति १०, १५, १। g) पा.। √भस्(भुवि)>असि इति शोषः द्र.। h) तैत्ति १, २७, ५। i) अथ ७, ३३, २२। सुव^१ इति श्रव्या.। j) वैतु. उच. वा.।। k) पा.। °तन्त्रीः स्वर^१ इति शोषः द्र. (तु. गोत्रा १, १, २१)। l) पा.। सर्वेन्द्र^१ इति शोषः द्र. (तु. पक्षे श्रव्या. संटि.)। m) वैप १ यद.। n) गौम् इति श्रव्या.। o) सौ १०, २, २१.। p) गौः इति श्रव्या.। q) कत.। r) वच.। s) =सुवर्ण-। t) सुव^१ इति श्रानः। u) सुवर्ण^१ इति श्रानः।

स्वर्णा(णो-आम>)भा- -भाम् रार
 २,९७.
 स्व(सु-अ)ल्प,ल्पा- -ल्पः आवो २८;
 अक्ष ५,१७; स्वम् मैत्रे ३,१७;
 १योत ५६; योशि ४,८; गी२,
 ४०; -ल्पा आवो २८.
 स्वल्प-नि(श)>द्र- -द्रः १योत
 ५७; त्रिभ्रा २,१०३.
 स्वल्प-स्वन्द- -न्दः १संन्या२,१७.
 स्वल्पा(ल्प-आ)नन्द- -न्दाः सं २,
 ५,४.
 स्वस्तु- -सां छां ७,१५,१; ते ६,१६;
 -सारः छां ८, २,४; -सारम् छां
 ७,१५,२.
 स्वस्तु-लोक- -केन छां ८,२,४.
 स्वस्तुलोक-काम- -मः छां ८,
 २,४.
 स्वस्तु-हृत्- -हा छां ७,१५,२; ३.
 स्वस्ति- -स्तये ४^व ४४२ : ९;
 ४४७ : १६; ४५२ : २; ४५५ : ७;
 -स्ति क १, १, ९; प्रशां ४^०; सुं
 शां ४^०; २, २, ६; मां शां ४^०; मना
 १, ९^०; ११४^०; अशि अ वृजा
 वृप नाप सी श शां ४^०; स्क १३;
 त्रिभ्र रार राप् शां पप शां ४^०;
 १संन्या २, ८६; अक्ष सू १आ
 पाशु पञ्च त्रिता दे शां ४^०; क२१;
 भा भ ग मवा गोपू कृ ह दत्ता गरु
 अशि पहं शां ४^०; सि शां ४^०; गार
 ४०५ : १; ४^०रा ४२३ : १;
 २^०; पिम शां ४^०; कथु ३, १;
 गी ११, २१; -स्तिः स्क ९;
 -४^०स्तिभिः मना २, १; व ४६१ :
 १०.

* १ स्वस्तिक-^{१११}-
 २ स्वस्तिक^{१११} -कः गह ५^१; -कम्
 अना १२; त्रिभ्रा २, ३५; शां १,
 ३, १^१; जा२३, १; ३; वरा ५, १६.
 स्वस्तिक-गोमुख-पञ्च-वीर-
 सिंह-भद्र-मुक्त-मयूरा(र-आ)-
 क्य- -हयानि शां १, ३, १.
 स्वस्तिका(क-आ)दि- -दि
 त्रिभ्रा २, ९१; -दीति त्रिभ्रा २, ३४.
 स्वस्तिकाद्या(दि-आ)सन-
 क्रम- -मात् रार ४, ५.
 १ स्वस्तिका(क-आ)सन^{१११}-
 -नम् जाद ६, ३२.
 २ स्वस्तिका(क-आ)सन^१-
 -नः जाद ७, १०.
 स्वस्ति-ज्योतिष- -पम् १संन्या २,
 ८६१^१.
 स्वस्ति-दा- -दाः मना १, ९, ४^१; २,
 ५, ५^१; ४^०व ४६४ : १; २.
 स्वस्थ- -स्व- -द्र.
 स्वा(सु-आ)गत- -तम् नाप ४, ७.
 स्वातन्त्र्य- -स्व- -द्र.
 स्वादु- -स्वाद्य- -स्वदृ द.
 स्वाध्याय^{११०} - -यः ते ५, ५२; शा
 १५; भव ३, ७; गी १६, १; -यम्
 छां १, १२, १; ८, १५, १; आर १;
 पहं १; की १, १; नाप ३, ८९;
 -यस्य द्रप् ३, ३, ३; -यात् तै १,
 ११, १; योम् २, ४४; -यैः १ १४;
 १६.
 स्वाध्याय-काल- -ले सी द.
 स्वाध्याय-ज्ञान-पञ्च- -ज्ञाः गी ४,
 २८.
 स्वाध्याय-व्यान- -नम् शि ७, १२७.

स्वाध्याय-प्रवचन- -नाभ्याम् तै १,
 ११, १; -ने तै १, ९, १^{११}.
 स्वाध्याय-युक्त- -क्ताः पाशु १, ३०.
 स्वाध्याय-शौच-संतोष-तपस्-
 -पांसि भव ३, १७.
 स्वाध्याय-संयम- -माभ्याम् भव
 ३, ६.
 स्वाध्याया(य-अ)भ्यसन- -नम् गी
 १७, १५.
 स्वान्त^१ - -न्ते व ६, २०.
 स्वान्ता(त-अ)भ्भोज- -जात् व ७,
 ६, १९.
 स्वाप- -स्वप् द.
 स्वाप्यय- -स्वाभाविक- -स्वामिन्-
 -स्वाम्य- -स्वायत्त- -स्व- -द्र.
 स्वार्थभुव- -स्वयम् द.
 स्वाराज्य- -स्वालक्षय- -स्व- -द्र.
 स्वा(सु-आ)वरण- -गानि त्रिभि २,
 १६.
 स्वावेश- -स्वास्थ्य- -स्व- -द्र.
 स्वाहा^१ तै १, ४, १; २^१; छां २, २४,
 ६; १०; १५; ५, १९, १४^०; वृ ६,
 ३, १^१; जा ४^१; मना १, १५^१;
 की २, ३^१; वृपू २, ४; छा १, १८^१;
 नाप ३, ७७^१; त्रिभि ७, ३०.
 स्वाहा^१/क
 स्वाहा-कार- -रः -रम् ३५, ८, १
 स्वाहा-कृत- -तम् मना २, १२,
 ३४^१.
 १ स्वाहा(हा-अ)न्त^१ - -न्ते वृजा ३,
 १३.
 २ स्वाहा(हा-अ)न्त^१ - -न्तः रार २,
 १९; ७९; ९४.
 स्वाहा-पद-द्रप- -यम् हंयो १४.

a) वैपश् यद. b) श्र १, ८९, ५। c) श्र १, ८९, ६। d) तै १, ४, १, १। e) श्र १, १८, ३।
 १) स्वस्तिं करोतीति कृत्वा कर्मकाण्डप्रसिद्ध-तदाक्यविभ्रविशेष-। उप. त्रैप्र. <क/>हं। g) =स्वस्तिक-
 विहाराराससनविशेष-। h) *कम् इति धन्या. संदि.। i) कथ.। j) मत्। k) *रिचज्जोपिभ इति निष्ठा. १। नि.
 शोषः द. (त्र. प्र. म्वा.)। l) *लोमयाः इति श्र १०, १५२, २। m) श्र १०, १५२, २। n) म्नुः।। o) म्नुः। <स्वदृ
 इति पा ७, २, १८। =हृदय-। p) स्वायत् इति निष्ठा., संदि.। q) ना २२, २३। r) तैमा १०, १, १५।
 १) श्र २, ३, ११। t) तस.।

हाटकमणि-मय- -यानि
सार २७४: ७.
हाटकमणिमयी- -यय.
सार २४६: २.
हाटक-मय- -यानि सार २७०:
११; २८४: ३.
हाटकमयी- -यय: सार २३७:
१११.
हाटक-सुगन्ध-कोमल(>); ल;-
-ला सार २८४: ११.
हाटक(क-उ)पघटित-नील-
मणि-राजि^०- -जि: सार
२४१: ३.

हट्-हट् लां २१६: १७.

√हट्

१हट^०- -डात् ध्वा ६७; ८६; सु २,
२, ४६; ४७; सार २५०: ६;
२७८. १०.
२हट^०- -ठ: १योत् १२; योशि
१, १२९; १३३९^०; योरा १;
-ठम् वरा ५, १०; -ठेन योशि १,
४५; १३४.
हट-योग--गम् १योत् २४
हटयोग-क्रम- -मात्
योशि १, १४५.

√हन्(वधा.), >

घाति, जिघांस,
बुद्धन्, हज्जमना १, ८९^०; ५७९^०;
व ४५८: २०; हन-हन जिता ३,
३१; गह ६; ला २१६: ३; व
४३०: १०; ४३३ १०; ४५७:
५; ९; १७; २०; ४५२: ११.
हन्ति क १, २, १९; वृ ५, ५, ३;
४; मै ४, ४, ४; मैत्रि ६, २०;

०८; ३४; मैत्रि १, ४, ६; योचू
१०२; ११८; वां १, ७, ६; योशि
१, ९६; इ १६: १०; कालिष्ठ० १:
१३^०; व ४५२: १५; भव ४, २;
गी २, १९; २१; १८, १७; म्रित
छां ८, १०, २; ४; वृ ४, ३, २०; ६,
३, १; मना २, ३८९^०; ३९९^०;
४०९^०; हन्मि महा ५, ११५;
हन्तु मना १, ११९^०; म्रन्तु व
४३४: २; जहि मना १, ११९^०;
महा ४, १३०; मृता ३, १०९^०; नी
३, ७; व ४५८: १९; ४६४: १८;
गी ३, ४३; ११, ३४; जहि-जहि
व ४३३: २२; हन्धि > णी व
४६४: १८; हनाव व ४६०:
१०९^०; अहनम् कौ ३, १९^०;
हन्यात् पे ४, २२; महा ६, २१;
२कौल १३; हन्यु: गी १, ४६.
जघात श ९: हनिष्यति २प्र
३३: १९; हनिष्ये गी १६, १४;
हनिष्याम(इम. २) शौ ५१: ३.
हन्यते क १, २, १८; १९; छां ६,
१६, १; ८, १, ५; १०, २; ४;
महा ५, १११; योशि १, १६३;
भव २, ३७; गी २, १९; २०;
हन्यताम् आधे २०.
घातयति गी २, २१; घातयन्ति
कथु ३, ७; घातय-घातय वपं
३१२: ६.
जिघांसन् शौ ५२: १५.
जह्नाव व ४६०: ११.
म्रन्- म्रत: गी १, ३५.
जह्नयमान- -ना: सु १, २, ८.

हत, ता- -त: क १, ३, १९; नी ३,
५; गी २, ३७; १६, १४; -तम्
क १, २, १९; महा ३, ५४; गह
९^०; ६२^०; २३^०; २४^०; गी २,
१९; -ता: महा ३, ५४; ५, १४३;
-ताम् गी ११, ३४; -ते ते ६,
८६; -तेन मना १, ९९^०.
हन्वा कौ ४, २०; मैत्रि ६, २८; वृ ४
४, ५; रार २, ८५; राष्ट्र ४, १९;
राउ ५, १५; गी १, ३१; २, ५^०.
हावाय व ४६०: १६९^०.

हन^०
हन-हन्द्- -हन्द्म् रार २, ६९.
हन-ह्य- -यम् रार २, ५९.
हन्तुम् क १, २, १९; वउ ३, २८;
गी १, ३५; ३७; ४५.
हन्तु- -न्ता क १, २, १९; -न्ताम्
गी २, १९; -न्त्रे भ १, ६.
हन्यमान- -न: मै ३, ३^०; मैत्रि ३,
३^०; -नस्व वृ २, ४, ७; ४, ५, ८;
-ने क १, २, १८; मै ३, ३; मैत्रि
३, ३; भव २, ३७; गी २, २०.
हनु^०- -नु: तै १, ३, ४^०.

ह(उ, >) नू-मत्^०- -०मन् लां
२१४: १९; २१६: १५; सु १, १,
८; -मन्त्म् रार १, २, ७^०; २-५,
१; राष्ट्र ४, २; -मात् रार १, ५;
७; २, १; १०५; ३-५, १; राष्ट्र
४, २५; ता २, २; ३, ३; ८.
हनुमद्-आदि- -दि रार ३, १.
हनुमदादि-बल- -लम् शौ
१, ७, ४२.
हनुमत्-प्रोक्त- -क्तम् रार १, ९.

a) ०या: इति पा. १ यनि. शोध: द । एतदनु गहृ. (४३६२) सस्य. 'तेजोमय-> -या:' इत्यत्राऽपि शोधः
कर्तव्यः । b) उप. = २राजि- । c) तु. गवृ. वृ २६३m । d) भाप. = १यल-स्वैयं- । e) = योगविशेष- । f) तैश्चा
१०, १, ८ । g) 'तरति' इति साम्प्रि. । h) तैश्चा १०, ४८, १ । i) तैश्चा १०, ४९, १ । j) तैश्चा १०, ५०, १ । k) मा
२६, १० । l) ऋ ३, ४७, २ । m) तैश्चा ३, ७, ६, २१ । n) ऋ १०, ८३, १ । o) 'अहनव' इति शांशा ५, १ ।
p) पा. १ यनि. शोध: द । q) 'हन्यते' इति SCHR. पाभे. [वैतु. वे. (NIA २, २३१)] । r) तैश्चा १०, १, ९ ।
s) 'व नु' इति SCHR. पाभे. [वैतु. वे. (NIA २, २३१)] । t) ऋ १०, ८४, २ । u) तु गवृ. वृ २६४d । v) वैप २ यद. ।
w) मनुषि दीर्घः (पा ६, ३, १२०) ।

हनुमद्-आदि-दि रा र ३, १.
हन्त^क २, २, ६; छां १, ८, १; वृ
१; ३, १; कौ १, १; वृ ६, १;
मना २, ६७^०; अज ३, ८; वरा
३, २१; सार २५६: १४; गो
१०, १९.

हन्त^क / क-

हन्त-कार-र:-रम् वृ ५, ८, १.

हन्तुम्, हन्तु-हन्ममान- / हन् द्र.

हंभी^० वृ १, ११.

हय^० -व: वृ १, १, २; पा ३, ७; -वा:
मै २, ९; मैत्रि २, ६; -यात् क
१, ३, ४; पै ४, २; भव २, ११;
वज-३, २३; -यै: गो १, १४.

हय-ग्री(वा>)व^१ -व- त्रिवि ७,

४१; ह ३; -व: ह ६; विवा १;

-वम् ह ६; सु १, ३, ९^०; विवा

१; -वस्य ह ७; -वाय त्रिवि ७,

३२; ३९; ४१; ह ७; ८:

हयग्रीव-द्वैपथ्य-स्यात् ह २.

हयग्रीव-प्रभाव-वेग ह १९.

हयग्रीव-पट्टिनादक्षर-मन्त्र-

न्त्र: त्रिवि ७, ४१.

हयग्रीव-स्वरूप-प: ह ९.

हयग्रीवै(व-ए)काक्षर--रेण ह ९.

हयग्रीवैकाक्षर-जप-शीला-

(त-आ)ज्ञा^१ -ज्ञया ह ९.

हयग्रीवैकाक्षर-बीज-जम्

ह ९.

हयग्रीवैकाक्षर-युक्त-कम्

त्रिवि ७, ४०.

हयत्^० चू. ८.

हर-हरण-हरव-हरि- / ह द्र.

हरिण^० -णम् प्र १, ८; मै ५, ८;

मैत्रि ६, ८:

हरिणी-णीम् अठ २४^०.

हरिण^० -

हरिणा(ण-अच्)>क्षी^१ -क्षी सार

२६३: १.

हरित^० -

हरित^१ -त: श्रे ४, ४; -तम्

वृ ४, ४, ९; अव्य १^१; -तस्य वृ ४,

३, २०; सुवा ४; -तै: शि ४, ६१.

हरित-वृण-णाम्याम् कौ २,

८^०.

हरित-पिङ्गल-लोहित-

(त-अ)क्ष-०क्ष मना २, ६५;

वर्ष ३१२: १५.

हरित-पीत-च्छाया-याभि:

सार २२५: ९.

हरित-पीत-नील-श्वेत-शुभ्र-

-आ: सार २५३: १२.

हरित-पीत-शुभ्र-श्वेत-ता:

सार २२२: २२.

हरित-पीत-श्वेत-शुभ्र-भूषा-

(म-आ)ताम्र-आणि सार

२७४: १५.

हरित-पीत-श्वेत(त-आ)रक्त-

पुष्प-गुच्छ-च्छै: सार

२७१: ९.

हरित-पीता(त-आ)रक्त-लता-

-ता: सार २७१: २.

हरित-वाहल-लै: सार २६०:

१५.

हरित-हय-बद्ध-बहुकठोरो-

(र-उ)त्तमाङ्ग-नवरत्न-त्रिभि-

को(श>)ता-०शे व ४३१: १९

हरित^० -त: तात् वृ ६, ५, ३.

हरिद्रा-हरिमन्- / ह द्र.

हरीताल^{१०} -लम् शि ६, ६५.

हर्षण- / वृ ३>कोपिष्ठ-दि. द्र.

हर्षुम्, हर्ष- / ह द्र.

हर्ष-हर्षमाण-हर्षित- / ह द्र. द्र.

हर्षुम्, हर्ष-हल-हल व ४३०: ११.

हल^{१०} -

हल-भजन-०नयिता ३, ३१.

हला(ल-अ)म-श्रे सी ६.

हव- / ह द्र.

हवन-हविष्य-हविस्-हव्य-

हु(दानादनयो) द्र.

ह्वस्, ह्वसति छां ३, १७, ३; योशि ६,

६७; हसन्ति महा ३, ३५; स्या

१, ३९; हस-हस लां २१५: २१.

हसत्-सत् योशि ६, ६८; आच ५.

हास्य-स्यम् त ४, २७.

हास्य-निष्ठीवना(न-आ)स्फोट^१-

-उम् शि ७, १३.

हास्य-व(र>)शी^१ -शी सार

२८२: ९.

हास्य-विनोद-द्वौ वि १०.

हस्त^० -

हस्त^१ -स्तिन: ऐ ५, ३; -स्तिति

सुवा १३; गो ५, १८; स्त्री वृ ४,

३, २०.

हस्ति-जिह्वा^{१०} -ह्वा १या ५३;

विश्रा २, ७१; योचु १७; १९; शां

१, ४; योशि ५, २१; भा १३; जाद

४, ७; १४; २१; वरा ५, २७;

ह्वाया: जाद ४, १५.

हस्तिजिह्वा(हा-अ)मि(य>)-

धा-धाया: जाद ४, ३६.

हस्ति-यला(ल-आ)दि-दीनि

a) अन्व. वैप १ यद. । b) तैआआ १०, ६७ । c) तु. गण. पृ ३३८। d) वैप १ यद. । e) =तदारुयो-
पनिषद्दिशेय- । f) तत्त.>बस.>तत्त. । g) पा।(/ हु वा / ह्नि वा >) 'हव-> -वै:' इति वा 'ह ये' इत्येवं वा बोधः
द्र. (भूयसस्तु पाभे. कृते तु. नादी, मन्त्रि ८) । h) विप. । अर्थः वैप १ यद. । i) तैआ १, २७, ३ । j) =ऊरु- ।
वैप १ यद. । k) =वर्णविशेष- । वैप १ यद. । l) =वर्णविशेषवत्- । m) 'तृणे इति शां ४, ८ । n) 'क्षि' इति
तैआ १०, ६०, १ । o) व्यु. ? =अपि विशेष- । p) व्यु. ? =भाटु विशेष- । q) समाहारे द्रस. । r) व्यु. ? =१ऊर-(परि.) ।
B) =नादी विशेष- ।

योस् ३, २५.
हस्ति-हिरण्य- ष्यम् क १, १,
२३; छां ७, २४, २.
हस्ती/भू
हस्ती-भूत- -तः वृ ५, १४,
८; गा २६१.
हस्त्यु(स्ति-श्र)पम- -भम् वृ ४,
१, २-७.

२हस्त^{१०}- -स्तः लि ३०२:६; -स्तम्
वृ ३, २, १३; सुषा ९^१; महा ५,
७५; सु २, २, ४२; -स्तयोः तै
३, १०, २; त्रिवा २, ४७; ८१; शां
१, ३, १०; जाद ४, २९; -स्ताः
राप् १, ९; -स्ताव गी १, ३०;
-स्ताभ्याम् वृ १, ४, ६; ३, २, ८;
मना २, ३ १९^०; ३ २९^०; कौ १, ७;
३, ६; ध्या ९३; १योत ११२;
नाप ५, १; ७; त्रिवा २, ४०;
४५; योच ६६; शां १, ३, ३; यो
१, १२; जाद ३, ४; ६, ३३;
-स्तासः मनो २, १२, २; शौ
५३: १५; -स्ते वृ ३, ८, २;
शे ३, ६९^१; सुषा ५; आच २;
सार २२२: ८; २७३: १६; नी
१, ५९^१; २, १९^१; १६९^०; सि ६,
११४; सिधि ३८१: १३; -स्तेन
त्रिवा २, ९५; महा ५, ७५;
१४३; सु २, ४२; क ६३: ६;
-स्तेः ग ११; सार २२८: १९;
-स्तौ प्र ४, ८; वृ २, ४, ११; ३,
२, ८; ४, ५, १२; कौ ३, ५-७;
सुषा ५, ६; त्रिवा २, ४४; ९४;
शां १, ३, ५; सार २४४: २२;
व ४३६: १०; भव २, १८.
हस्त-गृहीत- -तम् छां ६, १६, १.
हस्त-वाङ्मि- -ताः १योत ६०.

हस्त-पह(व>)या^१- -या सार
२६९: ९.
हस्त-पाद- -दौ योशि १, ७१.
हस्तपाद-चलन- -नम् ते ६, ८.
हस्तपादा(द-श्रा)दि-
हस्तपादादि-भय- -भान्
महा ४, १२५.
हस्त-प्रमाण-
हस्तप्रमाण-तस(>) शि ४, ८.
हस्त-प्रास- -सम् नाप ५, ३७.
हस्त-माय-प्रमाण- -णम् शि ३, ४.
हस्त-संस्थान- -नम् महा ५, १५६.
हस्त-स्थ- -स्थम् जाद ४, ५८.
हस्ता(स्त-श्र)हु(लि>)ली- -ह्यः पि
११.
हस्ताह्युलि-मुद्रिका-जटित-
मणि- -तेजस् -जांशि सार
२६५: १०.
हस्ता(स्त-श्रा)दि- -द्वयः वृ २, ४, ६.
हस्ता(स्त-श्र)भाव- -वात् ५, १९.
हस्ता(स्त-श्र)म्बुज- -जम् सार २,
२४.
हस्ता(स्त-श्रा)शोष्य- -प्येण शि ६,
८९.
हस्ता(स्त-श्र)ध- -धम् शि ३, ६.
३हस्त^{११}- -स्ताय व ४३८: ४.
हस्ता(स्त-श्रा)दित्य^१- -रथे सू ३२.
हा^{१२}
हा-^{१३}
हाइ/क
हाइ-कार- -रः छां १, १२, १.
हा-उ^{१४}
हाउ/क
हाउ-कार- -रः छां १, १२, १.
हाउ^{१५} तै ३, १०, ५.
√हा(त्यां), जहाति क १, २, १२;
छां ६, ११, २५; वृ २, १, १०;

३, २, १२; ४, १, २-७; ५, ५, ३;
४; श्रेष्ठ ५९^१; गी ४, ९; मना २,
१२, १९^१; नाप ३, ५३; योच
२६; महा ६, ४४; पायु २, २७;
यो १, १४; वरा २, ८२; सु २,
२, ६०; नाप ५, २१९^१; सांस् ३,
६४; गी २, ५०; जहाति वा ७.
जहौ भव ३, १५; १६; जहुः श्रे
५, १४.
हीवते क १, २, १; प्र ३, ११;
छां ४, १६, ३; ४; नाप ३; ५३;
महा ३, ५१; सिधि ३८०: १०.
जहत्- -हत् महा ५, १५२.
हान- -नम् सांस् १, ५७; योस् २,
२५; ४, २७.
हानो(न-उ)पादान- -नाभ्याम्
सांस् ६, १०८.
हानो(न-उ)पादान-घेषा-
(घा-श्रा)दि- -दि शां १, ४.
हानो(न-उ)पाय- -यः योस् २,
२६.
हानि^{१६}- -निः गी २, ६५; -निम् नाप
५, २९; नौ वृ ३, २, २६.
१हित्वा तै २, ५, १; मैत्रि ४, १; पदं
१; शशि ५, ६; १८^०; शु ३, ११;
पप ४१२: ४; त्रिवा १, ६५; सु २,
२, ६४; वड ३१७: ६; गी २, ३३.
हीन, ना- -नः ३, ५; १७; ते ४,
१६; ६, २६; नम् महा ५, १३३;
रजा १, ११; सिधि ३८०: ५;
-नायाः १संन्या २, २७.
हीन-वर- -रम् सुं १, २, १०.
हीन-मध्यमो(म-उ)कृष्ट-दृष्टि-
-धयः गौ ३, १६.
हीना(न-श्र)तिरिका(क-श्र)ङ्ग-
-ङ्गः इ १७: ६.

a) हस्तीभू इति पा. १ यनि. शोधः इ. (तु. नापू.) । b) =२कर- । वैप १ यद. । c) तैश्चा १०, २४, १ ।
d) तैश्चा १०, २५, १ । e) श्र ४, ५८, ३ । f) मा १६, ३ । g) मा १६, ९ । h) मा १६, ११ । i) व्यु. १ =नक्षत्र-
विशेष- । j) उप. =त्रिवा- । k) =साम-स्तोम- । l) तैश्चा १०, १०, १ । m) <√हृत् इत्यपि पक्षः (तु. ३१५.) ।

हीना(न-अ)प्र-पाल-यन्- -अः
 शि ७, १४.
 हेय- -यः सांस् १, ४; ३, ५२; -यम्
 नाप ५, १; ७; महा ५, ६२;
 १संन्या २, १३; पप ४१८: ३;
 अघ्या ६६; पत्र २, १; योस् २,
 १६; -वेपु महा ६, २८; -यैः भव
 २, ५३.
 हेय-ज्ञेया(य-आ)प्य-पात्रय-
 -क्यानि गौ ४, १०.
 हेय-स्य-
 हेयत्वा(त्व-अ)वचन- -नात्
 ब्रह्म १, १, ८.
 हेय-हान- -नम् सांस् ४, २३.
 हेय-हेतु- -तुः योस् २, १७.
 हेया(य-आ)द्वेय-दत्त- -दत्तो
 महा ६, २८.
 हेयै(य-ए)कान्त-विसर्जन- -नम्
 महा ४, २४.
 हेयो(य-उ)पादेय- -यम् १संन्या
 २, ४१.
 हेयोपादेय-निर्मुक्त- -के
 महा ६, ३०.
 हेयोपादेय-रूप-
 हेयोपादेयरूपिन्- -पि
 अत्र ४, ४७.
 हेयोपादेय-वर्जित, ता- -तः
 १संन्या २, ५१; -ता अत्र १, ५०.
 हाहकार-, हाउकार- हा द.
 हाक-
 हाकि(रु>)नी- -नी पी ४२२: १२.
 हाटक- √हृद् द.
 हानि-हावि- √हा (त्यागे) द.
 हार^१- -रः गह ५.
 हार-मैत्रेय-भू(प>)पा- -पाम् व
 ४२७: ३.
 हारा(र-आ)वली- -लीम् सार

२७१: ९.
 हारे(र-इ)त्यम्- -त्वा छां ४,
 २, ३.
 हारिद्रय^२- -वेपु सूता २, १०९°.
 हार्दि- १हृद्- द.
 हालहल^३- -लम् श ९°.
 हाव^४!-
 हाव-भाव-केलि-कौतुक- -कानि
 सार २२९: ११.
 हात्रेयु हा द.
 हास्य- √हृद् द.
 हा-हा^५!
 हाहा-भूत- -तम् शि ६, १९६.
 हि^६ के ४, २३; क १, १, २१; प्र ३, ५;
 मुं १, २, २; मां २; तै २, २, १;
 ए ३, १४; छां १, १, १; वृ १,
 २, १; मना १, १९; आर्ये ७ :
 २१!.
 √हि(वधा.)
 रहित^७- -तम् यो ३, ४; हे ४; भव
 ५, १४; गौ १८, ६४; -ताय सार
 २३०: १४; -ते नाप ६, २६;
 सार २३०: १५; शि ६, १५७.
 हित-काम्या- -न्यया १योत १;
 २योत १, १; योच् १; शि
 ७, १४०; भव ५, १७; गी
 १०, १.
 हित-कारिन्- -रि सार २४० :
 १६.
 हित-तम- -मम् कौ ३, १°.
 हित-पुत्र- -त्राय सु १, १, ४५.
 हिता(त-अ)करणा(सि-आ)दि-
 दोष-प्रसक्ति- -क्तिः ब्रह्म २,
 १, २१.
 हिता(त-अ)हित- -तम् नाप ३,
 ६८.
 ३(त>)ता^८!- -ताः बृट् १, १९;

४, २, ३; ३, २०; कौ ४, १९;
 सुवा ४.
 रहित्वा^९ यो २, ३०; गोउ ३.
 १हेतु^{१०}- -तवः गौ १८, १५; -तवे
 सार २७७: १०; -तुः धे ६, १७;
 गौ ४, १४; १५; १७; २०; २३;
 ५३; पदं २; त्रिमां २, ११४;
 अत्र ४, ७०; भव २, ८; सांवा
 ३१; योस् २, २४; ३, १५; गौ
 १३, २०; -तना गौ २, १; ५;
 ३, २६; कै १, १०; सी २२; महा
 २, ४२; भव १, १५; गी ९, १०;
 -तम् गौ ४, ७८; -त्वर गौ ४,
 ७६; -तोः छां १, ३, ५; गौ ४,
 १४; १५; १८; गौ १, ३५; -तौ
 सांका १;
 हेतुक- -काय सूता ६, ७.
 हेतु-जाल- -लस्य अशि ५, ६;
 १८; वदु ३१७ : ६.
 हेतु-तस(>) गौ ४, १८.
 हेतु-दृष्टान्त-वर्जित- -तम् अवि
 ९; त्रिता ५, ९; अवि ९.
 हेतु-द्रय- -यम् यो १, १.
 हेतु-फल- -लवोः गौ ४, १६.
 हेतुफला(ल-अ)जाति^{११}-
 -तिम् गौ ४, ५४.
 हेतुफला(ल-आ)वेश- -वा;
 -शे गौ ४, ५५; ५६.
 हेतुफलो(ल-उ)भव- -वः गौ
 ४, ५६.
 हेतु-फला(ल-आ)श्रया(य-आ)-
 लम्बन- -नैः योस् ४, ११.
 हेतु-मव- -नम् सांस् १, १२४;
 सांस् १०; -मन्निः गौ १३, ४.
 हेतु-व्यपदेश- -शाव् ब्रह्म १,
 १, १४; ३, २, ४१.
 हेल्व(तु-अ)भाव- -वे गौ ४, ७६.

४) व्यु. = नाला- १ b) वैपश् यद. १ c) अ १, ५०, १२। d) व्यु. = विप- १ e) °लाह^१ इति अन्त्या ।
 f) व्यु ? । g) अन्त्य. १ h) अन्त्य. वैपश् यद. १ i) तैश्चा १०, १, १। j) व. गद्य. ५७३६। k) भाप. = कल्याण- (वेतु)
 MW. < √धा। १) धा. अर्थ. = नाडीजालविशेष- १। m) धा. इदौ इति: १ n) धा. अर्थ ? । o) उप. तस. = अत्रान्मन्- १

रहेतु^०-
 हेतु-क^०-कम् व ४३०:१५.
 र्हिं^०
 हिं/ह्रि, ह्रिकुर्वन्ति छा २, ९, २;
 शी ५२: ६.
 हिचमः छा १, १२, ४.
 हिंकार^०- -ः छा १, १३,
 २; २, २, १; २; ३-८, १; ९, २;
 १०-२१, १; -रेण वी २, ११.
 हिंकारःभाजिन्- -जिनः छा
 २, ९, २.
 हिं-कृत- -तम् वृ ६, ३, ४.
 हिं-क्रियमाण- -णम् वृ ६, ३, ४.
 र्हिं^० व ४३५: १७.
 √हिंस्, हिनस्ति मुं २, २, ३; ऐध, २; वृ
 १, ४, ११; ५, ५, १; पित्र ३, ६;
 गी १३, २८; हिसन्ति गद २५
 अहिंसीव पाद, १०; हिंसीव मना
 १, ५९^०; हिंसीः खे ३, ६९^०; मना
 २, ७२^०; नी १, ५९^०; व ४३७:
 ४; ४६४: १९.
 हिंसक- -काय अव्य ७; -केयु पित्र
 ३, ६.
 हिं(स>)सा- -सा मै ३, ५; मैत्रि
 ३, ५; जाद १, ७; भव ५, ५;
 -साम् १संन्या २, ८८; भव ४,
 १५; गी १८, २५.
 हिंसा(सा-आ)रमक- -कः गी
 १८, २५.
 हिंसा(सा-आ)दि- -द्वयः वोस्
 २, ३४.
 हिंसादि-तरङ्ग- -ङ्गम् मं १,

२, ३.
 हिंसादि-रहित- -तम् जाद
 २, ८.
 हिंसा-पेगुन्व-वर्णित- -तः नाप
 ३, ३५.
 हिंसा-युक्त- -क्तानि नाप ५, २०.
 हिंसित्वा वृ १, ४, ११.
 √हिंफक्
 हिं(फ>)फा^०- -फा वोच् ११७.
 हिंहु^०- -हुम् सि ६, ७३.
 हिंहुल^०- -लम् सि ६, ६५.
 र्हित- √धा द.
 २-३रहित- √हि द.
 र्हित्वा √हा(त्यागि) द.
 र्हित्वा √हि द.
 हिंम^०-
 हिंम-सेचन- -नम् महा ४, २६.
 हिंमा(म-आ)दि^०-
 हिंमादि-कैलास^०- -सौ गु १३.
 हिंमा(म-आ)लय^०- -यः गी १०,
 २५.
 ?हिंमांशुप्रभाभिः^० प्रा २, १.
 हिरण्य, ण्या^०- -ण्यम् मना २,
 १३^०; पदं ४^०; वी २, ११; य २;
 वृ २९३: १; -ण्यस्य छा ५, १०,
 १; वृ ६, २, ७; -ण्या सौ १, १;
 -ण्याप मना २, १६^०; -ण्ये वउ
 ६, ३१.
 हिरण्य-
 हिरण्या(सय-अ)पलाश-
 -शाम् गोप् १८
 हिरण्य-मय^०- -यः तै १, ६, १; छां १,

६, ६; वृ ४, ३, ११; १२; मै १, १;
 मैत्रि ६, १; मना २, १४^०; कै
 २, १; वृ १, ८; गोट ५२; आर्ष
 ८: १६; वि १५; अठ २०^०;
 वृ २, १; -ण्यम् मना १, १४^०;
 १योट ८६; महा १, १; अक्लि १;
 ए ८: १०; १३; १४; गोट ४९;
 चा १६^०; -या(शी^०) सौ १, १;
 -ये मुं २, २, ९; -येन ई १५; वृ
 ५, १५, १९^०; मै ५, ८; मैत्रि ६,
 ८; ३५^०.
 हिरण्ययो- -यी वृ ६, ४, २२^०;
 अठ २५^०.
 हिरण्य-केश- -शः छा १, ६, ६.
 हिरण्य-गर्भ^०- -गं योशि ६, २;
 -गं: मै ५, ८; मैत्रि ६, ८; ७, ७;
 मना १, ३९^०; वृ १, ७; २, ६;
 ९, ७; नाप ८, १०; वोच् ७५;
 पित्रि २, १६; ३, ४^०; राउ ४, ३७;
 पै १, २७; महा ६, ८३; योशि १,
 ३; ए ४; यो ३, २२; कलि २; च
 २१: १४; सं ३; वृ २, १; -गंश्च
 खे ३, ४९^०; ४, १२^०; मना २,
 १२, ३९^०; पित्रि ३, ४; योशि २,
 १५^०; गु ५६; -^०र्भाय मना १,
 ६; व ४६३: ३.
 हिरण्यगर्भ^०- -गं: गोप्
 ४६^०.
 हिरण्यगर्भ-चेतन्य- -न्यम् पै
 १, १२.
 हिरण्यगर्भा(गं-आ)दि- -दीर्घ
 मं २, ७.

a) धा. अर्थः १। b) =शिवपारिविशेष-। c) वैठु. Pw. प्रम्. हिङ् इति। d) गप्. (पृ २४०) सस्यः
 √क>चक्रुः इत्यत्र यनि. शोधः कर्तव्यः। e) =स्तोभविशेष-। f) =बीजमन्त्रविशेष-। g) तैश्चा १०, १, ५।
 h) मा १६, ३। i) तैसं ५, ५, ९, ३। j) 'सा इति श्रद्धा'। k) व्यु? =रामठ-। l) व्यु? =चातुर्विधोप-।
 m) व्यु? =नुहिन-वैपश यदः। n) निसा. श्रद्धा. च पा. 'हिंमांशु-प्र(म>)भा-> -भा, आभिः' इति शोधः
 द (वृ. आन.)। o) वैपश यदः। p) तैश्चा १०, ६३, १। q) तैश्चा १०, १६। r) तैश्चा १०, १३, १। s) शौ १०,
 २, ३१। t) तैश्चा १०, १, १४। u) पा. 'यनि. शोधः द'। 'व्यस्त्रजा इति निसा. संटि.। v) मा ४०, १७।
 w) 'ण्ययोश्च १०, १८४, ३। x) तैश्चा १, २७, ३। y) =प्रमथन-। z) तैश्चा १०, १, ३। a') 'अंस्य इति निसा.।
 b') तैश्चा १०, १०, ३। c') वृ. गद. वृ ९४०। d') तैश्चा १०, १, ६। e') 'हिरण्यः' इति आन.।

हिरण्यगर्भा(र्भ-अ)धिष्ठित-वि-
क्षेप-शक्ति-

हिरण्यगर्भाधिष्ठितविक्षेप-
शक्ति-तत्त्व(>:) पै १, १३.

हिरण्य-ज्योतिष्- -ति: सुपा २.

हिरण्य-दंष्ट्र- -ष्ट्र: छां ४, ३, ५.

हिरण्य-दाष्ट्र- -त्तार: वम् २१.

हिरण्य-नाभ- -भ: प्र ६, १.

हिरण्य-निधि- -धिम् छां ८, ३, २;
भ १, १.

हिरण्य-पति- -तये मना २, २२५°.

हिरण्य-बाहु- -हवे मना २, २२५°;
बृजा ३, १४; -हुम् भ १, १;
२, ३.

हिरण्य-मय- -यम् च २० : ४.

हिरण्यय^०- -य: मना २, ४०५°;
-येन व ४३७ : ५५°.

हिरण्य-रूप, पा- -पम् भ १, १, २,
३; -पा सौ १, ३; -पाय मना
२, २२५°.

हिरण्य-रेतस्- -ता: ए २.

हिरण्य-लिङ्ग- -ङ्गय मना २, १६५°.

हिरण्य-वर्ण, र्णा- -र्ण: मैत्रि ६, ३४;
आयें ८ : १७; -र्णम् भ १, १;
२, ३; सू ४; -र्णा मना २, ४३५°;
सौ १, १; -र्णा सौ १, १°; -र्णाय
मना २, २२५°.

हिरण्यवर्णा(र्णा-आ)धा(दि-आ)-
धा-त्रय- -यस्य सौ १, १६.

हिरण्य-श्लङ्ग- -ङ्गम् मना १, १२५°.

हिरण्य-इमशु- -शु: छां १, ६, ६;
आयें ८ : १७.

हिरण्यवस्थात्^१ मैत्रि ६, १.

हिलि-हिलि^१ व ४३५ : ११.

हि(लि)>ली^१ - -लि व ४३५ : १८.

ह्रीं^१ लां २१६ : १९; ह्रीं-ह्रीं लां २१६ :
१९°.

√ही(इ)>ह्य, तिहीळ व ४६० : ८५°.

हीन- √हा(त्यागे) द.

हीरक^{१०}-

हीरका(क-आ)वली-घटित-मुक्ता-

फल-ज्योत्स्ना- -रथाभि: सार
२६५ : ५.

√हु(दानादनयोः), उहोति छां २, २४,
५; ९, १४, ५, २४, १-३; वृ १, ४,
१६; ५, २; ३, ८, १०; ६, ३, १;
१३; ४, १९; २४; मैत्रि ६, ३६°;
मना २, ८०५°; कौ २, ३; बृजा
३, १४; प्रा १, ६°; शा १९; पा
१, ४; वज ६, ४६; उहोते सुं ३,
२, १०; उहोति छां ५, ४, १, ५-८,
०; वृ १, ५, २; ६, २, ९-१४;
गी ४, २६°; उहोपि गी ९, २७;
उहोमि वृ ६, ३, १; ४, २४; जा
४; मना १, १५५°; कौ २, ४°;
नाप ३, ७७; त्रिवि ८, ५; पप
४१८ : १५; प्रा १, ६°; २, १°;
या १, १; व ४६० : १२५°, उहोमः
मना २, ५४५°; पा ६, ८५°;
इ^१ उहोत>ता व ४४० : २;
४४५ : ७; ४५० : १०; ४५३ :
१९; उहोयात् छां ४, १७, ४-६;
५, १९-२३, १°; २४, १; वृ ६, ४,
१२; मैत्रि ६, ३६; जा ४; बृजा

३, १३; नाप ३, ७७; सार ४, ८;
१०५ २, १००; पप ४१८ :
१४; अव्य ४.

उहुतु: छाग २३ : ६; होष्वति
वृ ३, १, ८; महोपी: वृ ६, ४,
१२°.

ह्यते मैत्रि ६, ३७; य २५; इ
१४ : २१; ह्ययते वृ ६, २, १६.

उहवा-

उहवां/क(करणे), उहवां वक्तुः
कौ २, ५.

उह^०- -हू छां ३, १५, २; भ १,
३५°.

उहव- -ह्व वृ १, ५, २; वपू २, ५°;
-ह्वन: अव्य ५, १२.

उहान- -न: मैत्रि ६, ३८.

हवन- -नम् सौ १, ३.

हविस(>२, ५)^{११}- -वि: ऐ २, ५;
मैत्रि ६, १६; ३४; २६; मना
२, ८०५°; अरि १, ११°; बृजा
२, ४; ते २, २२; ६, २३; स
२६; नाप ३, ७७; सुत्र २; पप
४१८ : १५; अव्य ३; ४; या १,
१; भा ८; म २, १५; २८; प्रा २,
१; इ ११:४; १८:४; १२:१५;
१७, ५° व ४४० : २; ४४५:५;
४५०:१०; ४५३:१९; गी ४,
२४; -इ^१ विमि: व ४४० : २३;
४४६:६; ४५१:२; ४५४:९;
-विष: इ १३:३; -विषा शे ४,
१३५°; मना १, ८५°; २, ५१५°;
अरि १, ११; वृ २, १६५°;

a) तैश्चा १०, १८, १। b) वैपरी यद.। c) ऋ ४, ५८, ५। d) ऋ १, ३५, २। e) तैश्चा १०, १६।
f) तैश्चा १०, ३४। g) °र्णानित्याद्युक्त्रं इति अच्चा। h) तैश्चा १०, १, १२। i) पा १ हिरण्यव-वल्->-वल्।
इति स्वरसंकेतितः (द्र. सात.) शोषः द्र. (वेद. राती. यनि. एव कथमपि व्याचक्ष्णाणः, निशा. सात. च °वत्स- इति)।
j) अदा. लोटि ममु१ इति कृत्वा = "दि-हि। k) व्यु. इ = देवीविशेष-। l) °भोमन्त्रविशेष-। m) ऋ १०, ८३, ५।
n) व्यु. इ। o) तैश्चा १०, ६४, १। p) सकृत् "उहोमि" इति आन.। q) तैश्चा १०, १, १५। r) "होमि" इति अच्चा।
s) °होति इति अच्चा। t) ऋ १०, ८३, ७। u) ऋ १०, १२१, १०। v) ऋ १०, १४, १३। w) = यज्ञप्रात्रविशेष-।
x) °वींवि इति आन., अच्चा। y) ऋ १, २४, ११। z) ऋ १०, १२१, ३। a') मा १३, २१। b') तैश्चा ३,
१५, १। c') ऋ १०, १२१, २।

नाप ३, ३७; प्रिता ३, २३;
रदिसं३३ऽः ३४ऽः; व ४६४;
८ऽः; -वींवि गर्भ ५; प्रा ३-४,
१; इ १६: २०.

हविर्-गुण- -णा: इ १८: २; ३.

हविर्-भुज्- -भुमम् मुद्र २.

हविष्-मन्- -मते दे२ऽः; -मन्त्रि:

क २, १, ८ऽः; -ऽमन्तः खे ४,
२२; मना २, ५३; रशिसं २९.

हविष्य-

हविष्या(ष्य-अ)आ(अ-अ)-

द- -दः रार ४, १.

हव्य^१- -व्यम् इ १५: ९.

हव्य-दाति- -त्थे २३, ३६;
२२ऽः.

हव्य-वाहन- -नः इ ११: ४;

-नाय वृजा ४, २९^४; -ने मुं १,
-२, २.

हुत, ना- -नम् प्र ३, ५; मुं १, २, ३;

छां ५, २४, २४; वृ १, ५, २; ४,
१, २; ५, ११; मैत्रि ६, ३७; मना

२, ७०^१; अशि ३, २; रा २६;

योशि ५, ३५; च २१: १७; पा

२, ३; वटु ३१५: २; वि ४, ३६;

४१; गी ४, २४; ९, १६; १७,
२८; -त्ता शि ४, ३४; -त्ता: वृ ३,
१, ८^१; -त्तायाम् वृ ६, २, २.

हुत-भुज्- -भुज् ए७; वना २, ३.

हुत-वह-निलय- -ये सी २, ३.

हुत-संविक्त- -रक्तः वृज ३, ७.

हुता(त-अ)शान- -नः मैत्रि ६,
३८; १अव ६; रुह ८; -नम्

योच् ५९; व ४६५: ९.

हुताशन-प्रति(छा) >-

-ष्टम् अ २, २८.

हुत्वा छां ५, २, ४; ५^५; वृ ६, १, २; ३

३^१; ४, १९; जा ४; वृजा ३, १५;

नाप ३, ७७; मुद्र २; पप ४ १८: १५;

प्रिता ३, २४^१-२६^१; शि २, २४.

हुन^१-

√हुन्, हुनेच् वृजा ३, १६; रार

२, ३४; वृ २, ५.

होतव्य- -व्या: वृजा ३, १५.

होमा^१- -मः ते २, २३; ५, ५२; ६,

२४; नाप ६, ३३; भा ४७; वट

६, ४७; -नम् वृ ५, १०; रजा

३, १; इ १४: ६; शि ४, ६३;

-नस्य शि ४, ३८; ४७; -मा: मुं

२, १, ८; भव १, १६; -मे इ १४:
१६.

होम-कर्मन्- -मं शि ४, ४८.

होम-शेष- -पम् वृजा ३, १७^४.

होमा(म-अ)थै- -थंम् सि ६, ६१.

√होमि, होमयति प्रा २, १;

होमयीत शि ४, ३९; होमयेत्

शि ४, ४९; ५८; ६१; ६३-६५;

६, ३; कालि ४०२: ९.

होमीय- -पम् छां ५, १९, १.

होम्य- -म्यम् प्रा १, ६३^१.

√हु(आक्षाने) √हे द्र.

१हुं^१ वृ २, ४; शु १, १८^३; त्रिवि ७,
३०; रार २, ६१; सावि १०;

भ १, १; दत्ता २; गरु ३; नापू

५, ९; नाउ २, १०; लां २१३: ९.

१हुं-कार- -रम् रापू ४, ५७.

हुम्-आदिक- -कम् रार २, ४.

हुं-फट्-कुवांग- -णम् भ १, १.

हुं-फट्-नति-सहित- -राम-द्वाद-

शा(श-अ)क्षर- -रम् रार ३, १.

हुं-फट्-अन्त- -न्तः रार २, १९.

२हुं^१ छां २, ८, १.

३हुं^१

हुं/ह

२हुं-कार- -रः छां १, १३, ३.

√ह.हत- √हे द्र.

ह^१ वृ ५, ३, १.

√ह. > हरि, हारि, जिहीर्षं, हरति वरा

२, ७९; गी २, ६७; हरन्ति प्र

२, ७; छां २, २१, ४; ५, ९, ३;

वृ ५, ११, १; ६, २, १४; कौ २,

१^१; २^१; इ १६: ६; गी २, ६०;

हरामि वट ३, ६०; -हरामि मना

२, ६७^१; हरामहे कौ १, १;

हुं^१ हरतु मना १, ७; व ४६४: ४;

हर क १, १, ७; दे १९; व ४६६:

३; वट ४, ४६; हर-हर गरु ७;

व ४६५: १३; हंपो १०; हरेत

वृ ४, १, २-७; हरेत् वृजा ३,

२२; ते ३, ७१; ७२; १योत

१२४; योच् १२१; रजा १, ४;

शि २, २९; ४, १६.

जहार श १४; भा १; पा ६, ४;

जहे सार २४१: २१.

हियते गी ६, ४४.

हरय-हरय दत्ता २.

हारय-हारय लां २१४: १८.

जिहीर्ष(र्ष)वां- -र्षो मै ३, ५.

हर^१- -र वट ३, ५४; ६३; -र:

थे १, १०; वृजा ६, ७^१; नाप ९,

९; चक १२; वट ३, १८; ४१;

५५^१; ५६; ५७; ४, २६; -रम् व

४३५: १९^१; वट ३, ५४; ५७.

हरा^१- -राम् वृज ४.

हर-मांवा(या-अ)त्मक- -केन

प्रिता १, ३.

a) ऋ १०, १२१, ३। b) ऋ १०, १२१, २। c) मा १३, २१। d) ऋ १०, १२५, २। e) ऋ ३, २९, २। f) ऋ १, ११४, ८। g) ऋ ६, १६, १०। h) 'प्रभञ्जनाय' इत्यपि निसा. पा.मे.। i) तैत्ति १०, ३६, १^१। j) क्रया. वा: प्र. उर्व. (पा ३, १, १३७)। k) इष्टमसो इति अख्या.। l) वृ. गपू. पृ १५६। m) =बीजमन्त्रविशेष-। n) व्यु. १ =वृत्तिविशेष-। o) व्यु. १ =स्तोत्र-। p) 'हृदय-' इत्यस्यैकदेशः परामृष्टो भवति। q) तैत्ति १०, ६७, १. r) तैत्ति १०, १, ७। s) धा. अर्थः १ शिव-। t) =हकार-बीजाक्षर-।

हर-शिरोरुह-हृम् वउ ४,१५.
हरण-णम् वउ ३,१३.
हरव-रते पा ९,१०; -रम् पा ९,
८; -न्तम् मना २, ४९५; रा
५; बा ५.
हरि-रयः वृ २,५,१९१; ५; मना
२, ४०५; -रये वृजा ४, २९;
त्रिवि ७,४१; नापू ३, १५; पा
३,२; -रिः मना २, १३, २५; ५;
वृजा ६, ७; वृपू १, ८५; ते २,
५; २५, ५, ८०; ६, १७; ६५;
त्रिवि ३१; ३४; योचू ७६; ७७;
श १; २७; २९; स्क २; महा ३,
५१; ४, ७६; ६, २१; अथा ६८;
जाद ४, ३५; कृ १०; वरा २,
६३; सूता १, ५; तुल ७०; १९;
नापू ३, ६५; ४, ३०; कृपु २;
नी ३, १; रशिसं १८; स ३७८;
९; हे ७; चक १२; वपू २, १;
गी ११, ९; -रिभिः रार २, ४५;
-रिम् मना २, १३, १५; २, ४९५;
वृजा ६, ७; १वोत २५; त्रिजा
२, १४३; रा ५; वा २५५; ३०;
महा १, १५; र्ह ६; सु १, १,
३; च २०; १०५; का १०;
सार २२६; १८; -रिन् रापू ४,
२४; -रे दत्ता १, ७; कलि
२६; सु १, १, १३; नाउ ३, १९;
-रेः त्रिजा २, ३३; सी २०; सुद
१, ३; ५; ८; शो १४; नापू ५,
३; सार २४३; २२; सु २९४;
७; भव १, ३५; २, ६०; ५, २०;
पिंज ६, १८; गी १८, ७७; -रौ
रापू १, १.
हरि-कथा(था-आ)लाप- -वैः

नाप १.
हरि-दिन-कृत्-प्रभा- -भया
वरा ३, ११.
हरि-(>)द्रा- -द्रा वा १०५; १;
-द्राम् नार ९
हरिद्रा-गणपति- -तये व
४३४; २२.
हरि-नामन्-मानि नाउ ३, १८.
हरि-नाथक- -कः ता २, १; ३,
२; ८.
हरि-पद्मा(पा-आ)दि- -द्वयः
सिनि ३८२; १७.
हरि-त्रि(य>)पा- -या राधा १,
२०.
हरिमन्- -मागम् सूता २, ८५;
९-१०५.
हरि-मन्विर- -रम् कृपु २१.
हरि-वक्षभ,भा- -भम् गव ५;
-भे सार २९२; २१.
हरि-मोकर- -रयोः वृजा ६, ७.
हरि-श्रीकृष्ण-मुकुन्द-कुमुदक्ष-
मुण्डरीकाश-धामक-शङ्खवर्ण-
सर्वेभ्य-सुमुख-सुप्रतीक- -काः
नापू ६, १३.
हरि-संस्कार- -राः भव २, ६८.
हरिसंस्कार-सेवन- -नम्
भव ५, १८.
हरि-हर-हिरण्यगर्भ-स्रष्टृ-
-ष्टारम् भ २, ३.
हृत्तम् वउ ३, ५७.
हृत्- -तो ग २; त्रि १५.
हृत्- -तः महा ६, २७; -तम् कृ १२;
बा ५; शि ६, २४९.
हृत्-शान- -नाः गी ७, २०.
हृत्' रार २, १०५.

१हृत्' - हृदा क २, १, ९५; ५; ३, २,
१३; ४, १७; २०; मना १,
३५; २, ४०५; ७९५; त्रिवि
६, १४५; गोपू २५; गु ६०;
६३५; व ४२७; १५; हृदि क
२, ३, १४; प्र ३, ६; लो ८, ३, ३;
वृ २, ५, १०; ४, ३-४, ७; खे २,
८; गौ १, २; २८; मै ४, ४, ८;
मंवि ६, २७; ३०; ३४; ७, ११;
गर्भ २; ५५; त्रिवि ४; ५; मर ३;
अना ३५; अशि ३, ८; ९; वृजा
१, १५; ४, ३; ६, ७; वृपू १, १५;
सुबा ४; ५; लु ३; ते १, १०;
ध्या ३१; ९३, १; त्रिवि १८; ६९;
७०; १वोत ११३; १३७; २वोत
१, ९; योचू २३; ७४; ९, ७; श
१९; रार २, ११; ४३; ८३; ८५;
शां १, ७, ५२; पै ४, ९; महा ३,
३६; १, ७८; ८२; १७४; ६, ९८;
१संथा २, ४३; अज ४, ११; ५,
७; पत्र २; यो १, ९८; त्रिता १, ३४;
५, ४; ५; जाद ४, २६; ६, ४६; पं
३६; वरा २, ४५; शार ५; सर ३,
२५; २९; सुद, २, ४०; ५१; सार
२२७; १०; २३६; ८; १५;
२१; २५६; १२; २५७; २४६;
१०; २९२; १७; वद ३१५;
८; ५; शि १, २४; ५, २१; गु ६०;
व ४२६; ५; वउ ४, ४५; ५, ३१;
भव ३, २५; त्रिवि ४; ५; मर १,
३, २५; २, २, २४; गी ८, १२;
१३, १७; १५, १५; ५; हृदे मना
२, २५; रशिसं ३१.
हृद-
हृदां(द्र-आ)सुगृहीत- -तः

a) तैश्वा ३, १५, १। b) पा. अर्थः ३ वरा. वैपश् यद.। इह = निष्पु- , स्य- , तत्किरण- , वर्षाविशेष-
प्रभ.। c) श्र ६, ४७, १८। d) तैसं ४, २, ९, ६। e) तैश्वा १०, ११, २। f) तैश्वा १०, ११, १। g) श्र १, ५०, ११।
h) श्र १, ५०, १२। i) 'रिहित' इति अन्ता. संति। j) = वीनमन्त्रविशेष-। k) 'हृ' इति अन्ता.। l) वैपश् यद.।
m) तैश्वा १०, १, ३। n) श्र ४, ५८, ६। o) तैश्वा १०, ६३, १। p) 'हृदये' इति आन., अन्ता.। q) श्र १०,
१२९, ४। r) 'भवसिपतम्' इति आन.। s) 'स्वहृदि' इति निवा.। t) श्र १, ४३, १।

प्रसू ४,२,१७.

हृत्-कण्ठ- -ण्ठम् पि १२.

हृत्^१/हृ

हृत्-हृत्वा^१ योशि १,७२.

हृत्-पङ्कज- -जे वा २५.

हृत्-पद्म- -पद्म^१ ध्या २६; गोउ ४६;

शि १,२४; -घात् गोउ १७.

हृत्पद्म-कणिका-मध्य- -ध्ये
ध्या १९.

हृत्पद्म-मध्य- -ध्ये आयो १.

हृत्पद्म-पदप(द>)दी- -दी

महा ३,२४.

हृत्पद्म(दा-अ)वधि- -धि यो १,
३३.

हृत्-पार्श्व- -र्श्वे वृजा ५,२.

हृत्-पुण्डरीक- -कम् कै १,६.

हृत्पुण्डरीक-मध्य- -ध्ये मैत्रे १,
४,८.

हृत्पुण्डरीकमध्य-स्य, स्या-

-स्यम् त्रिमा २,१५६; -स्याम् दे

१५.

हृत्-सुष्कर- -रे म ५,१;२; मैत्रि
६,१;२.

हृत्-मतिष्ठ- -ष्ठम् १शिसं ६;
२शिसं ५.

हृत्-सरोरुह- -हे जाद ४,४९.

हृत्सरोरुह-कोटर- -रे ध्या १००.

हृत्-स्य- -स्यम् गोउ ४७; गी ४,
४२.

हृत्-अन्तर- -रात् मैत्रि २, ६; -रे
मै २,९.

हृत्-अम्बर- -रे अघ ४,४९.

हृत्-आकाश- -शा: ते ३,२८^०; -शो
मैत्रे २,१४; महा २,४८; अज

४,५९.

हृद्-आदित्य-मरीचि- -चीनाम्

पाशु १,२४^०.

हृद्-आमन-नाभि-ऋण्ड-सर्पाङ्ग-

-द्धानि पै २,१०^१.

हृदि

हृदि-स्य, स्या- -स्यम् खेध, २०;

-स्या: प्र २; अशि ३,८; वटु

३१५: ८.

हृद्-शुकान्त-श्वोम- -संयेदन-

-नात् शां १,७,३५.

हृद्-गत- -तम् भवि २०.

हृद्-गुहे(श-र्द)दान- -नम् महा ६,
२०.

हृद्-ग्रन्थि- -न्थि: मसा १,२३.

हृद्-देश- -शे नाद ४^०; त्रिमा २,

१४५; वउ ४,३०; गी १८,६१.

हृद्-द्वार- -रम् अना २७.

हृद्-बाहु- -हो: शि ५,२२.

हृद्य- -घा: महा ५,८२; -घम् पित्र

५,९; -घा: गी १७,८.

हृद्य-ता- -ता १संघा २,५६.

हृद्-योग- -गम् सूता २,८.

हृत्-नाभि-नासिका-कण्ठ-पादा-

(द-अ)हुष्टादि-संस्थित- -त:

ध्या ९७^०.

हृत्-नाभ्यु(भि-ऊ)र- -रुपु रार २,

२३

हृत्-मध्य- -ध्यम् त्रिमा २,६६; शां

१,४; -ध्ये जाद ४,४९; ७,१२;

वरा ५,३२.

हृत्-लेख- -खे योशि ६,१८^१.

हृत्- -हृत् रार २,१०; ३०; ५४.

हृद्-अन्त- -न्त: रार २,६३; ६८;

१०५.

हृद्-आदि- -दिभि: रापु ४,४३.

हृद्-बीज- -जम् ध्या ३५.

हृत्-ले(स>)पा^१- -सा सू २;

प्रिता १,३५; -साम् श्या ९.

हृत्ले(ग-घाएव>)ध्या-

-ध्या प्रिता १,३.

हृद्य^१ - -यम् सुं २,१,४; २,७; ऐ

१-२,४; ५, २; छां ३, १२,४;

५,१८,२; ८,३,३; वृ२,४,११;

३,९,११; १४; १६; १७; ४,१,

७^६; ४,१; ५,१२; ५,३,१^१;

२,८; १०; मना २, १३, २१^०; २,

३५१^०; ८०१^०; गर्भ २, ५^०; अशि

६,७; प्र २; ३, १२; वृजा ४,

२५; २६; छु ४; घृषा १३^०; ते

६,९६; त्रिमा २,७; ७५; १३१;

स्क ८^१; पै ४,९; शारी १; महा

१,११^०; ५,५१; कुं २१; पाशु

२,३६; त्रिमा ४,१; ख १; जाद

२,८; पं ३६१^०; प्रा १,६; सु १,

१,३७; इ १०:२०: १८: ७१^०;

च २१:२११^०; निद २,३; २शिसं

११; गार ४०८: ८; गु १८;

व ४^१८: ६; -यस्य क २, ३,

१५; १६; छां ३, १३, १;

८, ६, १; ६; वृ ४, ३, २२;

४, २; अशि ५, १६; कौ ४,

१९१^०; सुधा ४^१; ११; योशि ६,

४; गोच ६६: २१; वटु ३१३:

१; -यात् ऐ १,४; वृ २, १, १९;

३, ९, २२; ४, २, ३; ६, ४, ११^०;

मैत्रि ७, ११; कौ २, १११^०; ४,

१९; सुधा ११^०; १शोत ९५;

a) गतित्वम् उरसं (पा १,४,७४) । b) पा ७,१,३८ । c) मा ३४,६ । d) ०शे इति अश्या । e) ०घादि^० इति निना । f) ०ङ्गम् इति अश्या । g) ०हृदये इति ध्यान । h) ०नासाकर्णं च पा^० इति निना । i) ०खि^० इति निना । सटि । j) वृजु: = १ननम्, अकार-बीजाक्षर- । k) = छी-बीजाक्षर- । l) वप्रा. वैपशे यद्र. । इह = १हृद्- , बीजाक्षर-विशेष- । m) तैत्रा १०,११,२ । n) तैत्रा १०,३५ । o) तैत्रा १०,६४,१ । p) ०हृदयपलानि इति अश्या । q) पा: ०येन इति शोध: द्र । r) ०ये इति पा: ०यनि. शोध: द्र. (तु. तैत्रा १०,११,२) । s) ०पुरषस्य इति शांशा ६,१९ । t) मंथा १,५,२६ । u) ०मुखात् इति अद्र १०,९०,१३ ।

महा ६, ८; -याति वै ४, २; गो
१, १९; -याप हृ २, ४; शु १,
१८; लां २१३; ६; वृ २, २;
-ये क २, ३, १०; ती १, ६, १; छां
३, १२, ९; १४, ३; ४, ८, १, ३;
वृ २, १, १०; ३, ९, २०, २३;
२४; ४, १, ०, २, ३; ४, २२; ५,
६, १; धे ३, १३; ४, १०; मैत्रि
६, १०; ७, ०; गर्भे २; हं १३;
कौ २, १०६; वृजा ४, १४; १८;
२१; २८; २९; मृउ ३, ९; १योत
११८; योच् ५; मं १, २, ०;
अता ५; राउ ५, ३; वा ३०;
शां १, ०, ४३; ३, १; वै ४, ३;
योशि १, ११०; १०३; ३, ४; २०;
५, ९; ६, ५०; त्रिता १, ०८; ८४;
४, २१; यो १, ४९; २, ४५; म
१, ६; रुजा १, २१; प्रा २, १;
दसा १, ५-०; सर ३, २५; योरा
१०; च २१; २; वृ ८५; ६;
वर्ष ३१२; २; ०; सुमु ५; सिशि
३८१; १४; व ४५९; ८; योस्
३, ३५; -येन वृ ३, ९, २०; २१;
२३; सु २, २, १९; -ऽयेषु व
४६१; ४; ४६४; २१.

हृदय-कमल-ले त्रिवि ५, १२.
हृदयकमल-कणिका-कायाम्
त्रिता १, ८०.
हृदयकमल-मध्य-उपे मं २,
४, ४; वा २१.
हृदय-नोचर-रम् त्रिमा २, १४९.
हृदय-ग्रन्थि-ग्रन्थयः अज ४, ८४;
सु २, २, १३; -ग्रिथः सुं २, २,
८; ते ५, १२; ६, १०१; महा ४,
८२; योधि ५, ४५; अज ४, ३१;
वर ३, ३२; -यो महा ५, ६५.
हृदयग्रन्थि-हीन-नः मैत्रे ३,

१५.
हृदय-चक्र-क्रम् सौ ३, १.
हृदय-श-शः छां ७, २, १; -शम्
छां ७, २, १; ५, १.
हृदय-दौर्गत्य-रुपम् गौ २, ३.
हृदय-नन्दन-नम् भव ४, १९.
हृदय-पङ्कज-जे त्रिमा २, १५९.
हृदय-पुण्डरीक-केषु वा २४
हृदयपुण्डरीक-कणिका-
कायाम् त्रिवि ५, ८.
हृदय-रुध-रुधम् म ३, १३; नाप
५, १; यो ३, ११; पित्र ६, १०.
हृदय-स्थान-नम् त्रिवि ४१.
हृदय-स्थित-ताः त्रिवि ५, ८.
हृदयस्थिता(त-अ)नादि-दुर्वा-
सना-ग्रन्थि-विनाश-दाः
त्रिवि ५, ८.
हृदयो(य-अ)श-दाः जाद ८, ४.
हृदयो(य-अ)काश-शो त्रिमा २,
६५; शां १, ४; महा ४, ९३.
हृदयो(य-अ)गार-वासि(न>)-
नी-नीं त्रिमा १, ३५.
हृदयो(य-अ)जलि-लिः त्रिमा २,
१४५.
हृदयो(य-अ)दि-कण्ठ-पर्यन्त-
न्तम् शां १, ०, १४.
हृदयो(य-अ)दि-न्यास-सः शु
२, ५; गृ ३.
हृदयो(य-अ)दि-मन्त्र-न्त्राः रार
३, १.
हृदयो(य-अ)घ(दि-अ)ह-न्यास-
कर-न्यास-सौ हं १२.
हृदयो(य-अ)न्त-न्तम् १योत ११.
हृदयो(य-अ)न्तर-गत-ते मैत्रि
७, ११.
हृदयो(य-अ)न्तुखदा(ह-अ)सीन-
न्तम् त्रिमा २, १५२.

हृदयो(य-अ)म्भोज-जे वउ ६,
१८.
हृदयोभोज-मध्य-ग-गः
मैत्रे ३, १०६.
हृदयो(य-अ)म्भोरुह-हम् त्रिमा
२, १००.
हृदयो(य-अ)वधि-धि वो १, २०.
हृदयो(य-अ)श-शः वृजा ४, २३.
हृदयो(य-अ)ध्वभाग-नो शां १,
०, ५२.

हृद्य-१हृद-६.

√हृप> हृपि, हृपयति नाप ३, ३८;
महा २, ४३; ४, ३२; ६, ४९;
गौ १२, १०; हृपयति सार
२५४; ०; हृपयति अज ५, ०;
हृपयामि गौ १८, ०६; ००.
हृपयेत् नाप ५, ६.
हृप-पः १योत १३; नाप ५, १९;
योशि १, ११; पंम् गौ १, १२;
-पेण त्रिवि १, ५.
हृप(व>)दा-दा महा ५,
१११.
हृप-विपाद-वाभ्याम् अज ५,
६.
हृप-वोक-काभ्याम् अज १,
३५; -कौ क १, २, १२.
हृपशोका(क-अ)न्वित-तः
गौ १८, २०.
हृप-स्थान-शत-तानि भव
१, ९.
हृपां(प-अ)मर्ष-भय-क्रोध-काम-
कार्पण्य-रुष्टि-रुष्टिभिः महा २,
४४; ६, ४९.
हृपां(प-अ)मर्ष-भयो(प-उ)द्वेग-
नोः गौ १२, १५.
हृपां(प-अ)मर्ष-भयो(प-उ)-
शुक्ल-कः वरा ४, २६.

a) ०यम् इति मन्त्रा. (१, ५, १०), शाश्या. (४, १०), ०यः इति अश्या. । b) ०यम् इति अश्या. । c) अ
१०, ८४, ० । d) क्रम्.>कस.>तम. । e) ०यान्तः इति अश्या. संदि. । f) ०यम् इति निवा. अश्या. संदि. ।
g) ०यु इति अश्या. ।

हपा(प-अ)मर्ष-विकार—

(द>)दा-दा अक्ष ५, ५.

हपा(र्ष-अ)मर्ष-संविद्- विद्:
अक्ष ४, २२.

हर्षमाग-ग्नासः व ४६०:१३४^५.

हर्षित-तः शि ७, ७२.

हर्षित-तः शो ११, ४५.

हृष्ट-ष्टः श १०: रापू ४, २२.

हृष्ट-पु(ष्ट>)ष्टा-ष्टाः शि ६,
१५९.

हृष्ट-नोमन्-मा शो ११, १४.

हृषीक^{१०}-

हृषीके(क-ई)र्षा^{१०}-शा नापू ३, १७;

शो ११, ३६; १८, १; -शाः १शोत

४; शो १, १५; २४; २, १०; -शाम्

शो १, २१; २, ९; -शाय त्रिवि ७,

४१

हृष्टसुपणो^{१०} निर २, ३.

हृ^{१०} आक्ष ३; श १; वरा ४, १३; शो १,
१; शि १, ३; गार ४०५: २; शो
११, ४१^१.

√हृड्

हृडस-डः शो १, १४^१.

हेति^{१०}-तितः शो २, १४४^१; १६४^१.

हेति-राज-जाय त्रिवि ७, ३९.

हृ-हेतु- हेतुक-√हि द.

हृमन्^{११}-म महा ४, ४६; योशि १,

१५९; अक्ष १, ३९; -मः शि ६,
१२०; -मा शि ६, १०२; -मि

शि ६, १०३; ११९.

हृम^{११}-मम् अक्ष १, म२, २९;

शिशि ३८२: १९; ३८३: ३; -मि

म १, ४.

हृम^{११}-

हृम-अ(व>)मी-मीम् के

३, १२.

हृम-तोय-यम् शि ६, ६६

हृम-प्र(हृव>)ख्या-ख्याम् व
४२६: १२.

हृम-मुरली-लीम् राधा २, ९.

हृम-रत्न-चित्त-तम् शि ७, ६४.

हृम-रत्न-विभूषित-तम् शि ६,
१०९.

हृम-रूप-वेण योशि ५, १९.

हृम-रौप्य-कृन्-तानि शि ६,
१२५.

हृम-रेखा(ला-आम>)भा-भा-
रुजा १, १४.

हृम-वर्ण, णो^{१०}-णो^{१०}: व ४३८: २२;
-णो^{१०}: शि ४, २६.

हृम-वस्त्र-स्त्रा: म २, २७.

हृम-स्तम्भ-सहस्र-पोडश-युत-
ते रा २, ३७.

हृम-स्वरूप(प>)पा-पाम् राधा
२, ९.

हृमा(म-अ)द्म-विभूषण-णा: म
२, २७.

हृमा(म-अ)द्म-रथ(रथ>); ख्या-
ख्याम् व ४२६: १३.

हृमा(म-आ)म, भा-भया रापू ४,
९; -भेन रापू ४, १०.

हृमा(म-अ)म्बुज-जम् महा ४,
१८.

हृमन्त^{११}-न्तः छां २, ५, १; १६, १;
मैत्रि ६, ३३; -न्ते महा ५, ७७;

सु २, २, ४१; शि ६, २१३.

हृमन्त-काल-ले रा ४२४: ७.
हृमन्त-दिशिह-री मैत्रि ७, ५;
२२ ३३: ८.

हृय-√दा(र्यागे) द.

हृरम्ब^{१०}

हृरम्ब-गुरु-रो: हे ४.

हृरम्ब-तरत्र-रत्रे हे ३.

हृरम्बो(म्ब-उ)पनिपद्^{११}-पदम् हे
१; १४.

हृ(र>)ला^{१०}-

हृला-निर्मित-धृल्ल-लोचन-व-
(ध>)धा-०धे व ४६५: २३.

हृला-विचलिता(त-अ)शेष-चतुरा-
(र-आ)चार-चम्चुर-रः भव
१, १७.

हृतुक-√हि द.

हृरण्य-हिरण्य-द.

हृ^{१०} व ५, १४, ८; हो-हो छां ४, १, २.

हृ^{१०} गा २५.

हृ^{१०}तव्य-√हु(दानादनयोः) द.

हृ^{१०}त्-हृ^{१०}त्रा-√हृ द.

हृ^{१०}म-हृ^{१०}मीय-हृ^{१०}म्ब-√हु(दाना-
दनयोः) द.

हृ^{१०} व ४५९: ९; १०.

हृ^{१०} रा ३, १; रापू ४, ५०^१.

हृ^{१०} लां २१५: १७; व ४२६: ८.

हृ^{१०} द-दः शो १, ३; -दम् शो १, ४.

√हृस्

हृस्व, स्वा-स्वः ५था १७; वरा^{१५},
६८; -स्वम् ते ४, २३; योशि ३,
१९; वरा ५, ७०; इ ११: ११;

-स्वा वृपू ३, ३; वपू २, २^१.

हृस्व-दीर्घ-प्लुत-तः (ःतम्^१)
अ १.

हृस्व-परिमण्डल-लाम्ब्याम्
मसू २, २, ११.

हृस्वो(स्व-उ)दात्त-तः २२
३४: १८.

हां^{१०} लां २१४: १९; सार २४७: १७;
पारा७; वर्ष ३१२: १; व ४२६: ५.

a) अ १०, ८४, १। b) = शोनिद्रिय-। स्यु. १। <√हृप> इति पाठ ४, १७। c) पा. १। 'हि, अष्ट-सुपण्व-
> वर्गो' इति शोधः द.। d) मस्य.। e) मा १६, ६। f) वैपरी यद.। g) मा १६, १२। h) मा १६, ११।
i) स्यु. १। j) वैपरी यद.। k) विर.। l) भार.। m) = अष्टविशेष-। वैपरी यद.। n) स्यु. १। o) पा. १। 'हो वृ' इति शोधः द. (उ. ५ ५, १४, ८)। p) = भीजमन्त्रविशेष-। q) 'हृ' इति आन.।
r) निता. पनि. शोधः द. (उ. अम्या.)।

√हाद्
 हादुनि-नयः छां ५, ५, १^०; घृ
 ६,२,१०.
 √ही
 ही- हिया है १, ११, ३; हीः वृ
 १, ५, ३; मैत्रि ६, ३०; नाप ४,
 १२; त्रिमा २, ३४; शां १, २९^{१०};
 जाद २, १; १०९^{१०}; वरा ५, १४;
 मी १६, २.
 रही^०- हियम् राष्ट्र ४, ४८.
 हीं त्रिवि ७, ३०; सार २, ५२; अक्ष
 १, ८; सावि १०^३; त्रिता ३, १७;
 यो ३, १; ह ८; दत्ता १, ३; सर
 २, २; नापू ३, ९; सार २३२;
 ९; हीं-हीं पारा ७.
 रहीं-कार- -रेण त्रिता १, ३.
 हीं/क
 रहीं-कार(>)री- नी व
 ४२७ : १०.
 हीं दत्ता १, ६; लां २१४ : १९; वपं
 ३१२ : १; कालि ४०३ : १२;
 व ४२६ : ६; ह-हं पारा ६; ७.
 हीं लां २१५ : १७; व ४२६ : ७.
 हीं लां २१५ : १७; पारा ६; व
 ४२६ : ७.
 हीं लां २१६ : ७; १६.
 √हाद्, > दि, हादविष्यसे पा
 ३, १.

हाद-
 हाद-परिताप-कल- -लाः योसु
 २, १८.
 हादयत्- -यन् पा ३, २.
 हादिर(>)नी-नी राष्ट्र ४, ५८^०;
 ६०^०; नापू ५, ३९^{१०}.
 र्हादिनी-मय- -याम्याम् सी
 ३७.
 हीं-
 हीं-क- -काः इ १५ : १५.
 हीं लां २१६ : ७; १६.
 ह्रस्व- ह ६; लां २१६ : ७; आथ
 ३९८ : १०.
 हीं ह ६.
 हीं-रूप- -वेण ह ९.
 √हृद्
 हृद्बुहराण- -णम् ई १८; वृ ५,
 १५, १.
 √ह्रि, > हुह, ह्वामहे वृ ६, ४, २२९^१;
 श्रे ४, २२९^३; त्रिता ३, २७९^३; व
 ४२९०१९^३; ४३९ : ५९^३; ४४४ :
 ९९^३; ४४९ : १९९^३; ४५३ :
 ७९^३; ४६१ : १४^३.
 ह्वामि अल्ला १.
 ह्रिहमहे व ४४२ : ८; ४४७ :
 १५; ४५२ : १; ४५५ : ६.
 हुवे पा ७, ४; हुवेम मना २,
 १९.
 हव- -वम् सर २, २९^०; ह्रि व ४४० :

२३; ४४६ : ५; ४५१ : १;
 ४५४ : ८.
 हृत्- -तः व ४६० : १५^०.
 होत्- -ता क २, २, २९^१; छां ४,
 १६, २; वृ ३, १, २^३; ३^३; ७; मैत्रि
 ६, १६; मना २; १२, २९^३; २,
 ४०९^३; ८०९^३; ली २, ६^३; वृपू ३,
 ६९^३; नापू ५, १९^३; पाशु १, ११;
 त्रिता ४, २७९^३; भा ८; प्रा ३, १;
 २२ ३६ : २२९^३; व ४६० : १९^३;
 ४६१ : १६९^३; वपू २, ३९^३;
 -ताम् २२ ३६ : १७९^३; अल्ला
 २^३; ह्रि व ४३९ : १५; ४४४ :
 १९; ४५० : ३; ४५३ : १३; -त्रा
 वृ ३, १, ३; व ८; सु २९३ : ८.
 होत्-पदन- -नात् छां १, ५, ५.
 हो(>)प्रा- -त्राः श्रे २, ४९^०.
 ह्रस्व- आथ ३९७ : १२.
 ह्रस्वी त्रिवि ७, ३२^०; ४०^०; ४१^०;
 आथ ३९४ : १७.
 ह्रस्वी^० वपं ३११ : ४; आथ ३९७ :
 १२.
 ह्रस्वप्र- आथ ३९४ : १६; व ४३२ : ९.
 ह्रस्वह्रस्वी^० व ४३२ : ११.
 ह्रस्म्यो^० आथ ३९८ : १३.
 ह्रस्वी^० व ४५७ : ७.
 ह्रस्वी^० वपं ३११ : ३.
 ह्रस्वी^० आथ ३९७ : १२.

इति वैदिकपदानुक्रमकोपे औपनिषदे तृतीये विभागे

द्वितीयः खण्डः समाप्तः ।

a) ०द् इति अत्रान्तं यनि. शोषः द. (द्र. निसा.; वृ ६, २, १०) । b) व्यु? =बीजमन्त्रविशेष- ।
 c) =बीजमन्त्रविशेष- । d) =दकार-बीजाक्षर- । e) =हरिकलाविशेष- । f) वा. ! ०नीना^० इति निसा. । g) =ही- ।
 h) श्र १, १८९, १ । i) वैपरी यद. । j) श्र १०, १८४, २ । k) श्र १, ११४, ८ । l) श्र २, २३, १ । m) श्र १, ७,
 १० । n) 'हुवेव' इति पा. इति यनि. शोषः द. (द्र. वी ७, ६५, १) । o) श्र १, ८५, ५ । p) 'ह्वामहे' इति शौ ७,
 ६५, १ । q) श्र ५, ४३, ११ । r) श्र १, २५, १९ । s) श्र १०, ८४, २ । t) श्र ४, ४०, ५ । u) तैआ १०, ६४, १ ।
 v) ०तः इति अत्र्या. । w) श्र ६, १६, १ । x) श्र १०, ८३, २ । y) श्र ८, ११, १० । z) श्र १, १, १ । a') श्र
 १, १२, १ । b') श्र ५, ८१, १ । c') 'ह्रीं (ह्रौं)' इति निसा. । d') 'ह्रीं (ह्रौं)' इति निसा. । e') 'ह्रीं (ह्रौं)' इति निसा. ।

अथ परिशिष्टम्

५अ

*अकात्स्न्य-

अ

५अ>अ-कार--रः^१ वृ२, २; वृउ २,
५^{१०}; ३, २. [°र- प्रणवस्थ°]
अकार-सुरीयां(य-अंश)>शां-
-शाः वरा ४, १^६.
अकारा(र-अ)र्धे--धेन वृउ ७, १४°.
अकारो(र-उ)कार-मकारा(र-अ)र्धे-
मात्रा(त्रा-आत्मक)>रिक्का-
-का वरा ४, १^६.
√*अंशु>अंश- अकार°, अमि°,
अद्दि...विद्°, अमिल°, अप्°,
अपर°, अर्धमात्रा°, अविद्या°, अ-
हंता°, आकाश°, उकार°, एक°,
चतुर्थ°, चन्द्र°, १चित्°, चित्-
प्रकाश°, चिक्षिष्यन्द°, २चैत्य°,

तद्दशर°, सुरीय°, तेजस्°, तोष°,
दशन्°, श्यानापाद°, नारायण°,
मिर्°, पूर्ण°, पृथिवी°, प्रत्यय°,
१धीज°, मन्त्रर°, माहात्म्यलेश°,
मूर्धन्°, रजस्°, लब्ध°, वायु°,
विकल्प°, विच्छिन्नशरदभ्र°, वि-
द्या...य°, विशेष°, व्योमन्°, शर-
दभ्र°, १शेष°, सत्त्व°, साक्षिन्°,
सारिवक°, सूक्तम्°, १सूर्य°, १सो-
म°, स्थूल°, स्व°, स्वस्वे...य°,
हृदय°
अंश(क)- त्रि°, नवन°, प्रणव°
अंशु- -शुना मना २, १२, २७^६.
[°शु- उप°, चेतस्°, धातु°,
शीत°, सहस्र°]
*अंशु-क- ३पीत°

अंशु-नाभि- -भिः ए ८^६.
√*अंस्>अंस- कुलगोत्र°, २वाम°
अंस-क-
अंसक-द्वय- -ये वृजा ४, १८^६.
अः>अ-स्वर- नवरेखा°
*अ-क- पर°
अकचर्त्- -र्हः-र्हः-र्हः अल्ला ३^१.
१अ-करण- सङ्गसमय°, २हित°
अ-कर्त्- >अकर्त्-ना- कर्त्ता°
अ-कल- -लः मैत्रि ६, १५^३.
अ-कल्पित- कल्पित°
अ-काकपृष्ठ- -ष्ठम् नाप ४, ३८°.
१आकामम् मैत्रि ३, ५.
*अ-काम्य- काम्य°
२अ-कारण- -णम् अद्दि ७^१.
*अ-कात्स्न्य- आत्मव°

*अत्र तावद् द्विविधाः शब्दाः समावेशं लभमानाः द्र. । मू. पठितपूर्वाः सन्तः पुनरपीह पठ्यन्तेऽन्ये । अन्ये चेद्देव प्रथमं पठ्यन्त इति । अथ ये मू. पठितपूर्वाः सन्त इह पुनरपि पठ्यन्ते, तेषां पुनःपाठे सतैतानि निमित्तानि द्र. । तद् यथा— १. यत्र मू. स्थलविशेष-संकेतः कथमप्यलब्धसमावेशः स्यात्, २. यत्र कोप्यप्रदर्शितपूर्वः पाठो. प्रदर्श्यः स्यात्, ३. यत्र कोप्यसंकेतितपूर्वो मूलान्तरोद्धारः संकेत्यः स्यात्, ४. यत्र कोपि प्रदर्शितपूर्वः स्थलविशेष-संकेतः शोध्यः स्यात्, ५. यत्र कस्यचित् प्राति. स. अनाद्यावयवोयः प्रयोगः प्रदर्श्यः स्यात्, ६. यत्राऽऽधारप्रत्यसंस्करणविशेषाऽतिरिक्तग्राठीयस्थलसंकेतः समावेश्यः स्यात्, ७. यत्र कश्चित् पठितपूर्वः शब्दः शोध्यः स्यादिति । अथापि य इहेव प्रथमं पठ्यन्ते, तेषां वामतोऽध्यमे + इत्येतच्चिह्नयुजां सतां चत्वार इमे वर्गाः द्र. । तद् यथा— १. ये मू. संभावितसमावेशा अपि सन्तः कथमपि तत्राऽलब्धसमावेशाः स्युः, २. ये मू. समाविष्टानां सतां स्थाने शोधस्वरूपाः स्युः, ३. ये मू. समाविष्टानां स. अनाद्यावयवस्वरूपाः स्युः, ४. य आधारप्रत्यसंस्करणविशेषोपायाऽतिरिक्तपाठकस्वरूपाः स्युरिति ।

a) गपृ. (पृ३) मुद्रितस्थलेषु यनि. बोधः द्र. । b) सट्टव ओं इति निसा. । c) गपृ. (पृ३) यनि. बोधः द्र. । d) रादिः इति अज्या. । e) धेन इति निसा. । f) शम इति अज्या. । g) अयं बस. कपः प्र. सामान्यो निर्देश-प्रकारः द्र. । h) वृ ४, ५८, १ । i) सुना इति अज्या. । j) 'अंसे द्वये' इति अज्या. । k) उप. = ३क- । l) अक्षरस्य मुगलसम्राजो नामपदस्य संस्कृताऽऽपस्या विकारितमिव रूपं द्र. । m) अका इति सात. । गपृ. (पृ५) सस्य. 'अ-काल->-लः' इत्यत्र सट्टव यनि. बोधः द्र. । n) 'कालपृ' इति काचित्कः निसा. पाठो. । o) पा. १ 'आकाम->-मः' इति बोधः द्र. (वेदु. राती. यनि. वा आकामम् इति वा) । p) 'कारणम्' इति पा. १ यनि. बोधः द्र. ।

अ-कार्य- कार्य°
 अ-काल- लः मैत्रि ६, १५^{१६}.
 + अ-कुल- १कुल°
 अ-कृत- कृत°
 + अ-कृत्य- कृत्य°
 अ-कृष्ण- अशुक्र°
 १^२अ-क्रतु- -तुम् नाप ९, १३; श १८;
 -- मना २; १२, १.
 अ-कूर- -रः कृ १६°.
 "अकूर-युत(ता)°- -ता रापू ४,
 ५८.

अ-क्लिष्ट- क्रिष्ट°
 ✓अक्- > २अक्ष-एकोन...त्, केन°
 तुलसी°, पञ्चाशत्°, पत्र°, १६^२°
 "अक्ष-माला-ज्ञानमुद्रा°, पारा°°
 पुस्तक°, मन्त्रहस्त°
 "अक्षमा(लक्ष)° लिहा- ऐत-
 रेय°°, तुरीय°°ज°
 अक्ष-सूत्र- अक्षुलीय°, पात्र°°
 ह्यु°°

३अक्ष (<अक्षि-)- अक्षस्, अक्षि°,
 अभिनद°, इन्द्र°, २कट°
 १कपिल°, कमलपत्र°, १काम°
 किञ्चि...त्, कुमुद°, शौ°, चञ्चल°
 मि°, देह°, निमीलित°, १पत्र°
 परस्°, २भिङ्ग°, २विङ्गल°
 पुण्डरीक°, पुष्कर°, प्रति°, १भद्र°
 भङ्ग°, २सोहित°, विह्वल°
 विराट°, १निर्व्व°, शंकरा°, शुभ°
 संहार°, महत्त्व°, मुक्ती°, २हरिण°
 हरित°-द्वित°, द्विरपय°

४अक्ष- - मर्षे°
 अक्षन्- - १^२क्षभिः
 अक्षर- -रः वृ १, ८१^८; महा १,
 ११^१; बालि ४३; ५१^१. वज २,

३०; -रम् वृ २, ५^१; भव २,
 ६; वपू १, २; -राणि रापू ४,
 ४६^१; काम ३; ४; १५; ह ७^{१६};
 ८^{१६}; -रे मना १, ११^१. [२-
 अकार°, अधि°, अन्°, अनुज्ञा°,
 अनेक°, अमृत°, अर्धपयन्°,
 अष्टम्, अष्टत्रिंशत्°, अष्टम°,
 अष्टाचत्वारिंशत्°, अष्टादशन्°,
 १भादि°, आधार...त्मन्°, ईवार°
 उकार°, उद्गीय°, एक°, एकार°,
 एकोनविंशत्°, एतद्°, २कति°,
 १कूट°, क्षर°, चतुर°, चतुर्थ°,
 चतुर्थकूट°, २चतुर्विंशत्°, चतुर्विं-
 शति°, चतुर्ध्वारिंशत्°, १चित°,
 जीव°, तुरीय°, तृतीय°, तृतीय-
 कूट°, त्रय°, २त्रयोविंशत्°, त्रि°,
 त्रिंशत्°, त्रयान्°, दूर°, द्वाविंशत्°,
 द्वादशन्°, द्वाविंशत्°, द्वि°, द्वि-
 तीय°, द्वितीयकूट°, नवन्°, निर°,
 पञ्चदशन्°, पञ्चन्°, पञ्चम°, पञ्चम-
 कूट°, पञ्चविंशति°, परस्म्°, प्रति°,
 प्रथम°, प्रथमकूट°, १बीज°,
 मकार°, १यकार°, वशा°, रेफ°,
 १ललित°, १वर्ण°, २वेद°,
 शक्तमृतम्, शत°, शब्द°,
 शास्त्र°, पञ्चविंशत्°, पञ्चविंशत्°,
 पर्व°, पष्ट°, पष्टकूट°, पौडशन्°,
 ६स°, मंथि°, सप्तदशन्°, सप्तन्°,
 सप्तम°, सप्त°, सडल°, हकार°]
 अक्षर-पद-अष्ट- -ष्टम् सा १
 २९२: २०.

अक्षि, क्षी- -क्षि महा ५, ७०^१. [०] क्षि-
 अन्तःकरण°, कटवह्नी°,
 १कली°, १स्वच्°, १दक्षिण°,
 पञ्चाक्ष° पाद°. १गात्र°, वृष्ट-

वशा°, मुख°, २वाम°, शिरस्°,
 श्रोत्र°, संतत°, १स्य°]
 + अक्षि-पाणि-पाद- अनन्त°
 अक्षि-शिरो-मुख- सर्वतस्°
 + अक्षि-शूल- अक्षराल°, शिरः-
 शूल°

+ अक्षी-पात्र-वन्ध- -वन्ध् लां
 २१५: १३:
 अक्षु(क्षि-उ)न्नेप-निमेप- प्र-
 चारण°

अ-क्षत- -ते आचो १, ११^१; -तेषु वज
 -६, २९. [०-त-कुङ्कुम°, गन्ध°,
 पत्र°, पुष्प°, पूजित°, लाज°]
 + अक्षत-प्रक्षेप- २कर°

अ-क्षमा- -माम् अशि ५, १८^२.
 अ-क्षय- -यम् मैत्रे १, ४, ६^१; ११६°.
 [०-य- कर्मन्°]

अ-क्षुब्ध- परानन्दरस°
 अ-खण्ड- अखण्डलक्षण°, अक्षि-
 तीय°, अद्वैत°, अप्रमेय°, १केवल°,
 विद्यादिवर्ण°, २निरतिशयानन्द°
 अखण्ड-तेजो-मण्डल-विशेष-
 -पम् त्रिवि ६, २३°.

अखण्ड-मण्डल- परमाकाश°
 अखण्ड-विग्रह- प्रहारण°
 + अखण्डा(एड-आ)कार-वृत्ति-
 तदाकाराकारिता°

+ अखण्डा(एड-आ)नन्द-पद-
 शुद्धादौ...क्ष°
 अखण्डा(ण्ड-आ)नन्द-पीयूष-
 पूर्ण-प्रह्ला-महा(हा-अ)णव-
 -वे. अथा ६६°.

+ अखण्डा(एड-अ)मित-सर्वादि...क्ष°
 + अखण्डा(एड-अ)मिततेजो-राशि-
 आनीकिक...क्षण°

a) सष्टत् 'कालः' इति यात. b) तैश्चा १०, १०, ११ c) उ. गपू वृ ७३१ d) १) ए. = अतुस्वार- ।
 ०) = रिभोवह- = इष्टविशेष-। f) अष्ट २, ८९, ८ (गपू, वृ ६ यनि. शोषः दः)। g) तैश्चा १०, ११, २। h) गपू. (वृ ६)
 यनि. शोषः दः। i) 'राज' इति ज्ञान.। j) तैश्चा १०, ११, १। k) उ. गपू, वृ ७०७। l) पा. १° क्षिते इति शोषः
 दः (ग. अष्ट ९, ११३, ५)। m) 'पृथ्वाण' इति ज्ञान.। n) 'अभयपद्' इति अग्न्या.। o) 'अक्षरम्' इति तान्त्रि.।
 p) 'आण्डलविशेष' इति निशा.। q) गपू. (वृ ८) सस्य. यनि. शोषः दः।

अखण्ड(एड-ए)करस- -सम् ते
 २, १५
 अ-खिल- -लम् शा ३२३५ ३५; लैः
 शा २६. [°ल-अनन्त°, चिद-
 चैत्य°]
 +अखिल-कर्मन्- अपित°
 +अखिल-कारण- अनादि°
 अखिल-कार्यकारण-जाल- उदय-
 ...दि°
 +अखिल-कोतुक- विगत°
 +अखिल-क्रिया- कृपि...दि°
 +अखिल-भूत-भीति- प्रशान्त°
 अखिल-ननोरथ- प्राप्त°
 +अखिल-मन्त्र- प्रणवादि°
 अखिल-लोक- व्याप्त°
 अखिल-वर्त्मन्- -वर्मेना मर २, १५
 अ-खे ३- खे°
 +अ-गमन- गम्य°
 अ-ग(म्य)> ग(गमन- मनस्त-
 पातको...क°
 अग(ऽ)स्ति->अगस्त्य- रवमिष्ठ°
 आगस्त्य->आगस्त्य-संज्ञ->
 शा- शा त्रिता १, ६६.
 +अगार- -रम् कौ २, १५. [°र-
 अग्नि°, १दे०, देवामि°, शूर्य°,
 श्रोत्रिण°, हृदय°]
 अ-गुण- गुण°
 अ-गुण- -ग ते २, १६.
 अगुरु- देसर°, चम्पक°, सुगमद°,
 लज्ज°
 अगुरु-रस- अन्तःसुगन्धतैल°
 अ-गोचर- अखिलप्रमाण°, नामरूप-

ज्ञान°, मनोवाच°, वाङ्मनस्°,
 १वाच°, वाचाम्°
 अग्नि- -प्रयः वृष ४, १५, १६; -प्रये
 मना १, १२५; २, ३-५५; -भिः
 क २, १, ८५; मना १, ७५; कौ
 ४, १६५; वृजा ३, २६; वृष २,
 १५५; नाप ४, ३८५; आ ८°;
 नाउ १, १५५; व ४६३; ७५;
 अरु २२५; वपू १, २; २, १;
 वउ २, २; १९; ३, ७; ४९; ४,
 ५; १७; ४१; ५, २८; -भिना महा
 ४, १६; -भिम् ५, २संन्या १७ः
 ६; ७; अरु १, ५५; ३, २५; वउ
 ५, ६; -भोन् वउ ३, २४; -भे
 ५मना २, ६; ७; व ४६३; २६५;
 -भेः श्वे २, १५; मना २, ७९; १५;
 नाउ १, १५५; -भौ वपू २, ५.
 [°भि- अन्तर°, अपरोक्षज्ञान°,
 अरु°, आकारा°, आरमसंयम-
 योग°, आर्द्रिध°, आहवनीय...
 छि°, आहवनीय...सम्भ्य°, आदि-
 त°, इन्द्र>न्द्रा°, इन्द्रिण°, उत्तरा°
 उदर°, ३कल्प°, काय°, रकाल°,
 योष्ठ°, रत्न°, खज°, चन्द्रसूर्य°,
 १चित्°, जठर°, जमव°, रजल°,
 जाठर°, ज्ञान°, ज्वाला°, तद°,
 तुष°, त्रयी°, त्रेता°, रद्विष्णु°,
 रदर्शन°, दाव°, दुष्कृत°, १देव°,
 धृत°, १धुव°, १नरक°, निर°,
 निराकार°, पचन°, पचन्°, पडु°,
 १पुरुष°, प्रशान्त°, प्राण°, प्रैव°,
 प्रदज्ञान°, १वदन°, गरमन्°,

महान्धकार°, १मूल°, २योग°,
 राजन्°, १रुद्र°, १रूप°, लौकिक°
 रवडवा°, १वांशु°, वापु°, विधूम°,
 शक°, शरीर°, २शक्ष°, १शिव°,
 शोत°, रमशान°, श्री°, ६स°,
 संयम°, समिधु°, सप°, सर्व°,
 साम्य°, १सूर्य°, १सूर्य°,
 १सोम°, स्थले°, स्वर°, स्वा-
 त्मन्°, स्वाधीन°]
 अग्नेय- सोर°
 अग्नेयी- -यीम् पप
 ४१८ : १?; या १, १?.
 अग्नेय-दिश- -दिशम् व
 ४२८ : १०.
 १अग्नि-क- गपू. ४१२. ६.
 +अग्नि(क)- अरु°, उत्तरा°, ६स°
 +अग्नि-धित्- अरु°
 +अग्नि-ज्वाला- व्याप्र°
 +अग्नि-दिग्-अन्तर- शूर्यागार°
 +अग्नि-नेत्र- तीक्ष्णदंष्ट्र°
 +अग्नि-प्रभा- चम्पक°
 अग्नि-बीज- प्रणवसंपुटित°
 +अग्नि-रक्षा- -क्षा व ४३४ :
 १५?]
 अग्नि-वर्णणां- -र्णम् कुं ६°;
 -ऽर्णाम् मवा २, १; दे४; व
 ४६५ : २०.
 अग्नि-ष्टोम- -मेत वउ ५, १३.
 [°म- अति°]
 अग्नि-संयु(क)>का- -क्ता रापू
 ४, ६०.
 अग्नि-सम- -मः वउ ५, २२.

a) सहृत् °सः इति अश्या. (गपू. ४८ सस्थ. यनि. शोषः द.) । b) अश्या. सं. अया. (गपू. ४९ सस्थ. यनि. शोषः द.) । c) °लंन इति अश्या. । d) °नाम् इति अश्या. संदि. । e) व्यु ३ = अगार- । f) आ° इति अश्या. । g) तैश्चा १०, १, १२ । h) तैश्चा १०, २, ४, १ । i) श्र ३, २९, २ । j) तैश्चा १०, १, ७ । k) °नः इति अश्या. शोश्चा ६, १७ । l) सहृत् °मः इति अश्या. । m) तैश्चा ८, १, १ । n) तैश्चा २, १८, १ । o) 'अर्ष्यम्' इति अश्या. तान्द्रि. । p) तैश्चा १, २, ७, ४ । q) °रिनदाहः इति अश्या. । r) शो ७, ८५, २ । s) तैश्चा १, २, ७, २ । t) तैश्चा १, २, ७, ५ । u) तैश्चा १०, ५, १ । v) तैश्चा ४, २३, १ । w) मर ११, १ । x) 'अग्निः' (द्र. सस्थ. गपू. ४१०) इति निसा. यनि. शोषः द. (द्र. तैश्चा १०, ६३, १) । y) निसा. यनि. शोषः द. (द्र. अश्या.) । z) द्र. गपू. ४२८७ । a') द्र. गपू. ४१३८ । b') 'अग्निः, चनम्' इति अश्या. । c') सि १०, १२७, १२ । d') एप. = रेक-बीजापर- ।

+अग्नि-सेविन्- अन्
अग्नि-होत्र^१- अतिरात्र^२, निरशन^३,
प्राण^४, शिव^५
+अग्निहोत्र-क^६- तारसार^७,
पञ्चमन्त्र^८
+अग्निहोत्र-गृह- श्रद्धागार^९
+अग्निहोत्र-शाला- श्रद्धागार^{१०}
अग्निहोत्रिन्- अन्^{११}
अग्नी(मि-इ)घ->अग्नीध्र^{१२}->
अग्नीधीय- -याः(इयात्^{१३}) २प्र
३३ : २३.

+अग्न्य(मि-अ)गार- गुद^{१४}
अग्न्या(मि-अ)नन- -ने त्रिता २,
३१^{१५}.

अग्र- -प्रम् घ्या १८^{१६}; ३७^{१७}; -मे शृजा
१, १५^{१८}; वृष १, १५^{१९}; २संन्या
१७ : १५^{२०}; वपु २, ४; वड ३,
२९. [°प्र- अद्गुलि^{२१}, अद्गुष्ट^{२२},
अन्तस्त्रिकोण^{२३}, अष्टार...कोण^{२४},
इआरा^{२५}, उद्, एक^{२६}, १ओकार^{२७},
२कर^{२८}, करतल^{२९}, १उश^{३०}, कूर्पर^{३१},
कोण^{३२}, जिह्वा^{३३}, तद्, तदभ्य-
न्तर...प्रासाद^{३४}, तर्जनी^{३५}, तुरी-
योकार^{३६}, तुण^{३७}, त्रिकोण^{३८}, दशन-
नल^{३९}, दृष्टि^{४०}, नख^{४१}, नासा^{४२},
नासिका^{४३}, पर्वत^{४४}, पल्लवकोण^{४५},
२पुर^{४६}, पूर्वयोनि^{४७}, फण^{४८}, भक्-
त्रिह्वा^{४९}, यद्, रसना^{५०}, लक्ष्मी^{५१},
वाल^{५२}, वि^{५३}, शाला^{५४}, शल^{५५},
१स^{५६}, हल^{५७}]

+अग्र-कोण- रेखाचतुष्टय^{५८}

अग्र गण्य- स्कन्द^{५९}

+अग्र-त्र- १भरत^{६०}, १शिव^{६१}

+अग्र-ज्वलन- तदोक्त^{६२}

अग्र-तार(>:) १शिव^{६३}

+अग्र-देश- जिह्वा^{६४}
+अग्र-नासिका-वक्त्र- १नील^{६५}
+अग्र-पाक- सर्व^{६६}
+अग्र-भाग- ललाट^{६७}
+अग्र(ऽ)घ(न)>ण->आग्रयण-
अन्^{६८}
+अग्रिम- १स^{६९}
अग्र्य- -इयम् नाप ४, ३८५^{७०}.
[°घ्य- अनेक^{७१}]
+अग्र्य-गुण- समग्र^{७२}

अ-ग्राह्य- -ह्यम् वड १, १४; ५, ३९.

√अघु>अघ- -घम् कौ २, १०५^{७३}.

[°घ- अन्, उत्तरपूर्व^{७४}, तन्त्री^{७५},
पूर्वतर^{७६}, समस्त^{७७}, सर्व^{७८}]

अघ-मर्षण- -णः मना १, १३५^{७९};
१४५^{८०}; १५५^{८१}.

+अघौ(घ-ओ)घ- सर्व^{८२}

अ-घोर, रा- -रा श्चे ३, ५५५^{८३}; -रेभ्यः
मना २, १९५^{८४} [°र- तत्पुरुष^{८५}]

√अघोर-घोरतर- -रेभ्यः मना
२, १९; व ४६२ : २२.

+अघोर-मूल-मन्त्र- वीरहनुमत्-
सायस्यधन^{८६}

+अघोरा(र-अ)र- पाशुपतास्त्र^{८७}

√अङ्क>अङ्क- अङ्कित^{८८}, कलङ्क^{८९},
त्रिपुण्ड्र^{९०}, ३भग^{९१}, १राम^{९२},
१वरुण^{९३}, वर्णाक्षरपद^{९४}, दश^{९५}

अङ्कित- अष्टयोनि^{९६}, अष्टयत्न^{९७},
ऊर्ध्वमंपुत्रयोनि^{९८}, कस्तूरीतिलक^{९९},
१चक्र^{१००}, तन्नामन्^{१०१}, तुलसीकाष्ठ^{१०२},
दशयोनि^{१०३}, मात्सर्य^{१०४}, द्वाहचक्र^{१०५},
धोराथा...मन्^{१०६}, श्रीवदन^{१०७}माला^{१०८}

अङ्कुर- कोमल^{१०९}, दूर्वा^{११०}, पत्र^{१११},
पलारा^{११२}, पुनर्जन्मन्^{११३}, २प्रवाल^{११४},
बद्^{११५}, १धीत्र^{११६}, भूयोजन्मन्^{११७},

महत्^{११८}, लोकैकदीप^{११९}, शत^{१२०},
संकल्प^{१२१}

+अङ्कुर-क- अन्तरमृत^{१२२}, अमृत^{१२३}

+अङ्कुर-रूप- जगत्^{१२४}

+अङ्कुर-शाखा- सहस्र^{१२५}

अङ्कुरी/भू>अङ्कुरी-भूय यो
३, १८^{१२६}.

१अङ्कुरा^{१२७}- अक्षुत्त^{१२८}, अनक्त^{१२९}, गदा^{१३०},
निर्^{१३१}, निशित^{१३२}, पारा^{१३३}, महत्^{१३४},
१वज्र^{१३५}, १वज्र^{१३६}

+अङ्कुर-बीज- प्रणवसंपुटित^{१३७}

+२अङ्कुर(शु)>श्रा^{१३८}- -ना त्रिता
३, १५.

अं-कार- ५अ ८.

√अङ्क>अङ्क- -ङ्गात्-ङ्गात् वृ ६,
४, ९; कौ २, ११; -ङ्गानि के कौ

आर्ध मै मैत्रे शां^{१३९}; शु १, ११;
सी २७; योचु वा शां^{१४०}; रार
२, ९६; १००; ३, १; महा अथ्य
१संन्या कुं सावि रुजा जाद जावा
शां^{१४१}; गह ११५^{१४२}; तारा ८३ :

१६; वपु १, ५; २, २; वड ५, ४.
[°ङ्- अन्, २अनाहत^{१४३}, अन्तर्^{१४४},
अप^{१४५}, अमृज^{१४६}, अष्टन्^{१४७}, २असित^{१४८},
उत्तम^{१४९}, उणुह...हर^{१५०}, उदार^{१५१},
उद्भूतित^{१५२}, उप^{१५३}, १काम^{१५४}, कुर्या^{१५५},
१कृष्ण^{१५६}, क्रिया^{१५७}, खट्वा^{१५८}, गोपी-
चन्दनलिप्त^{१५९}, जप^{१६०}, तद्, तृतीय^{१६१},
२दत्त^{१६२}, दीर्घ^{१६३}, १हड^{१६४},
पचन्^{१६५}, पुम्^{१६६}, पूजा^{१६७}, पृथ्वीमरुड-
लमुद्रा^{१६८}, प्रति^{१६९}, प्राणिन्^{१७०}, फल-
विशुद्ध^{१७१}, बहिष्>१^{१७२}, १प्रदन्^{१७३},
भस्मदिध^{१७४}, भस्मव्यापाण्डुर^{१७५},
मद^{१७६}, मुकुटात्^{१७७}, यत्न^{१७८},
२योग^{१७९}, २रफ^{१८०}, रक्तगन्धातुक्ति^{१८१},

अ) = १दाय-धोपनिषदिकोप-। b) पा. १ वनि. शोधः ८. (प्र. गोसा १, १, २३)। c) = १ग्यासत्ने इति अग्या.
संदि.। d) = १मे इति अग्न.। e) = १मे इति निगा., अग्न.। f) अ १०, १२९, ४। g) शी ७, ८०, २। h) गृ. (११२८)
पाप २, २, ११ शर्येवं शोधः ८.। i) मंसा १, ५, १०। j) तैसा १०, १, ११। k) तैसा १०, १, १४। l) तैसा १०, १,
१५। m) मा १६, २। n) मैतं २, ९, १०। o) = १विमाचम् इति अग्या. संदि.। p) गृ. (११४) वनि. शोधः ८.।
q) = १मुनिषेप-। r) गृ. (११४) गण्य. वनि. शोधः ८.। s) पाप ३, १५, २३। t) मा १२, ४।

रहस्य^{००}, राधा^०, राम^०, रत्न^०,
 लालितकण्ठ^० १वज्र^०, रवाम^०,
 रवाम^०, विकट^०, विष^०, रवेद^०,
 शुभ^०, शौचन्दनवित्ति^०, श्वेत^०,
 यप्^०, रस^०, संनत^०, सतन्^०, मव^०,
 साधारण^०, सामन्^०, रघुगन्ध^०,
 सुपुष्ट^०, सूक्ष्म^०, स्व^०, हीनाति-
 रिक्ता^०, हृदयादि^०
 १अङ्-व^० गपू, पृ १४ द.
 २अङ्-व^० कटक^०, केयूर^०,
 प्रियं^०, मुकुट^०, १शङ्ख^०
 ३अङ्-वसक- यन्त्र^०
 ४अङ्-भूत- महाभायादेवी^०
 ५अङ्-मे(म्-ए)जय-> अङ्-मे-
 जय-स्व- दुःख^०
 अङ्-राग- तद्^०, दिव्य^०, नाना^०,
 नानासुगन्ध^०, पङ्क^०, भरमन्^०
 ६अङ्-रूप- कर्म^०
 अङ्-वासुदेवादि- रुक्मिण्यया-
 दि^० गोपू १८७.
 ७अङ्-विभूतण- हेमन्^०
 अङ्-शोभा- धातु...जित^०
 अङ्-संस्पृश- नैः अज ५,
 २८१^०.
 अङ्-सङ्ग- लिङ्ग^०
 अङ्गी/ङ् > अङ्गी-कार-
 तद्^०
 ८अङ्गी(ङ-उ)पाङ्ग- रस^०
 अङ्गण- गृह^०
 ९अङ्गना- १देव^०
 अङ्गार- अमेष्य^०, वि^०
 अङ्गिरस^०- रसम् वउ ५, १८.
 [रस- अथर्वन्^०, यधोर^०, मृशु^०]
 अङ्गिरस^०- रवसिष्ठ^०
 अङ्ग-> अङ्ग- अनामा^०, अना-
 मिका^०, कनिष्ठिका^०, रकर^०,

१त्वच्^{००}, पाद^०, प्रपद^०, मध्यमा-
 नसामिलित^०, रवाम^०, २श्वश^०,
 रस^०, सक्लीकरण^०, सव्यपाद^०,
 सूर्यमण्डला...विन्द^०
 १अङ्गुष्ठ(क^०)- रकाल^०
 २अङ्गुष्ठ-द्वय- यम् त्रिमा २,
 ४०. [०य- पाद^०]
 अङ्गुष्ठ-मात्र- -त्रः श्वे ३, १२९^०.
 [०त्र- शरीरप्रादेश^०]
 ३अङ्गुष्ठ-न्यापक-रवान्ता-
 (न्त-अ)ष्टाङ्ग-दण्डमुण्डि-
 न्यारा(स-आ)दि- दि वउ
 ६, १५.
 ४अङ्गुष्ठा(प्र-आ)दि- १हृद^०
 अङ्गुष्ठादि-स्वावयथा-
 (व-अ)स्फुरणा(ए-अ)दर्शन-
 नैः त्रिमा २, १२१^०.
 ५अङ्गुष्ठाद्य(दि-अ)ङ्गुली-
 स्व^०
 अङ्गुल- एक^०, चतुर^०, दशन्^०, द्वा-
 दशन्^०, द्वि^०, नवति^०, नवन्^०,
 १पणवति^०, १५^०, १०३शन्^०
 अङ्गुलि, ली- -लिभिः योचू ११४.
 [०लि, ली- अङ्गुष्ठादि^०, अना-
 मिका^०, कनिष्ठिका^०, चतुर्थड...द्वा-
 दशन्^०, २चरण^०, १त्वच्^{००}, ३वा-
 शन्^०, द्विकर^०, पाद^०, मध्य^०, १म-
 ध्यम^०, यावक...त^०, पद्मिंशत्^०,
 सार्ध^०, स्व^०, २हस्त^०]
 ६अङ्गुलि(क^०)- उरग^०
 ७अङ्ग पा ६, १.
 ८अङ्ग- / अङ्ग द.
 ९अङ्ग-> अङ्गि- अन्त्य^०, २दत्त^०,
 १वाच्^{००}, रवाम^०
 १०अङ्गि-पद्म- रक्षणा^०
 ११अच्- अन्त्र^० द.
 अन्तर- चर^०

अ-च्छल--लः आबो ३. [०ल- अज^०,
 अमितबोधानन्द^०, अमितानन्द^०,
 अमितानन्दचिद्रूप^०, आनन्द^०,
 कल्याण^०, १कुल^०, चल^०, १चिदा-
 नन्द^०, निहयम...न्द^०, परमा-
 नन्द^०, बोध^०, बोधानन्द^०]
 १अच्छल-श्रिणि- परममङ्गल^०
 अ-चिन्त्य- -न्ययम् ते १, १^१; वउ १,
 १४; ५, १९. [०न्य- स्वानन्द-
 मय^०]
 अ-चिर- रात् कै १, १; ह १.
 १अ-चीर- -रम् व ४६६; ११९^०.
 अ-चेतन- चेतन^०, १त्रिगुण^०
 २अ-चेतयितव्य- -न्ययम् वउ ९, १८.
 ३अ-चैत्य- १चित^०
 ४अच्छ > १अच्छ, छा- अति^०,
 आकाशशतभाग^०, गुणारकर-
 विन्म^०, पु^०
 अ-च्युत- -त्वम् ते १, ८^१. [०त-
 १शिन^०]
 ५अज् उद्^०, नि^०, सम्^०
 अज- -जः अशि ४, १५^१; वपू २,
 ३. [०ज- अज^०]
 १आज- गपू, पृ १७ द.
 अज-गर- कोप^०
 अजा(ज-अ)ण्ड- अनन्ताखिल^०
 २अजन- वि^०
 अजिन- कथा^०, १कृष्ण^०, चित्र-
 मृगयाप्र^०, चौर^०, चेल^०, चैल^०,
 दलकल^०
 अजिर- अन्तःपुर^०
 ३अजाज- सम्^०
 अ-जड- जड^०
 अजनयन् मना १, १५१^१.
 ४अ-जन्य-> अजन्य-मण्डल- गदा-
 ...शब्द^०

अ) = भूषणविशेष- । b) गपू. (पृ १५) 'रवम'-> यनि. शोषः द. । c) व. गपू. पृ ५६ र। a। d) व. गपू. पृ ८७। e) तैसा १०, २८, १। f) 'दशानेः इति निशा. । g) गपू. (पृ १६) सस्थ. यनि. शोषः द. । h) 'अचिर- चित्तम्' इति शान. । i) तैसा ७, ४, २। j) 'अप्ययम्' इति शान., 'अक्षिपः' इति शब्दा. संदि. । k) 'जजम् इति शब्दा. । l) निशा.। 'अनयन्-> -यन्' इति शोषः द. (य. श्र ९, १५, ४०; १८.) ।

+अ-जय- २जय°
 अ-जर- नः मना २, १३, २५°; -रम्
 ५, ३, २१; सुवा ५^(१७)
 +अ-जरत्- रन्तम् पा ६, १०.
 अ-जस्- -रम् आबो १५°.
 +अ-जाग्रत्- -भ्रतम् वृ २, ११.
 +अ-जाड्य-> अजाड्य-निद्रा-
 अल्पमृतपुरीष°
 +अजाड्य-सहजा(ज-अ)मनस्क-
 योगनिद्रा- शुद्धादित°
 १अ-जाति- हेतुफल°
 अ-जित- जित°
 +अ-जीर्ण- १क्षय°
 अ-जे(य>)या- -या कृ. ५.
 अ-ज्ञ- अनभिहोत्रिन्°, त्र°.
 अ-ज्ञात- ज्ञात°
 +अज्ञात-सुख- अलम्...°
 १अ-ज्ञान- -नम् १को ११°; ३: २.
 [न- अधर्मकारण°, अव्यक्त-
 लेख°, आत्मन्°, १काम°, ज्ञान°,
 दुःख°, धर्म°, १भय°, रज्जु°,
 सर्व°, स्वकारण°, १स्वरूप°]
 +अज्ञान-तत्-कार्य- विमुक्त°,
 विलीन°
 अ-ज्ञेय- -यम् वृ ३, ११°.
 अ-ज्या-> अज्या-म(य>)वी- -यी
 अरु २६५°.
 +अ-ज्येष्ठ- १ज्येष्ठ°
 +अ-ज्येष्- अव°, आ°, उद°,
 तिरस्°, परा°, प्र°, प्रति°, वि°,
 विपु°, सम्°
 अ-ज्य- १अपर°, अर्वा°, भव°,
 उद°, घृत°, तिरस्°, २दक्षिण°

१दधि°, परा°, पुह°, प्रति°,
 १विश्व°, सम्°
 °अच्य आ°
 अञ्चित- कुरधरस°, तोरण°, मृदु-
 रोमन्°
 ✓अञ्ज् अभि°, अभि-वि°, आ°,
 उप°, वि°
 अञ्ज- अभि-वि°, २आज्य°, वि°
 +अक्ति- अभि-वि°, वि°
 +अञ्ज- अभि°
 +°अज्य आ°
 +अज्यमान- वि°
 +अञ्जक- वि°
 १अञ्जन- अभि°, आ°, उप°,
 गोमय°, वि°
 +२अञ्जन- निर°, १स°, संमार्जन°
 +अञ्जन-ता- तद्°
 अञ्जलि- उदक°, इत°, तिल°,
 पुष्प°, पूष्ण°, प्र°, वड°, मूर्धन्°,
 हृदय°
 +अञ्जलि-पुट- कृत°
 ✓अद् परि°
 अदत्- परि°
 अदन- भित्ता°, भैक्ष°
 +अदवी- विन्त्य°
 ✓अद्-अद्-> अद्-हास- महत्°
 ✓अण-> अण- -वः
 मना २, ७, १५°.
 १अणु- -णुः वृ २, १२; १७; -णोः
 क १, २, २०°; श १८° [°णु-
 अन्°, १चित°, परम°]
 आणव- -वम् ते १, १°.
 आणिमन्- -ना कौष्ठ, १९५°.

अणिमा(मु-आ)दि- सिदि-
 -द्वयः वपु २, ४.
 +अणिमा(मु-आ)दि- (वि-अ)-
 टक- ६स°
 अणीयस्- -यः वृ ३, १५°;
 -यसम् मना १, १५°; ५° वा २
 क १, २, २०; श १८.
 ५° अणीयो(यस्-ऊव->):
 ध्वो- -ध्वो मना २, १३, २;
 महा १, १; वा २२; च २२: ४.
 अणु(क-)- वि°, वि°
 अणु-कोटर- विस्तीर्ण- -ते ते
 ६, ८७°.
 +अणु(क->)का- -का: लुट°.
 अणु-वाते(त-ई)रित- -तः मैत्रि
 ६, ३५°.
 ५° अणु(णु-उ)प(म->)मा- -मा
 मना २, १३, २; नाउ १, १५;
 कालि ४०३: ५.
 अण्व्य- -ण्व्यम् मैत्रि ३, ३६°.
 आणि- -णी ऐ की नाद आबो निद्रो
 मुद्र अक्षं सी सर व शांति ५°
 अण्ड- अखिल°, अजु°, अन्तय°, अवि-
 या°, कुम्कट°, २खग°, जगत्°,
 तप्तम्°, पिराड°, १भ्रमणम्°, मूला-
 विद्या°, लोक°, समष्टि°, सर्व°,
 स्वर्ण°
 आण्ड-> आण्डी ✓भू. आण्डी-
 भव अरु ८५°.
 +अण्ड(क-)- चतुर°, पृथक्°, शाली°
 अण्ड-कोश- -शा: आर्ष ७, १७°.
 +अण्ड-ज- ऊर्मज°, जरायुज°
 अण्डज-पिण्डज- सकल°

a) तैश्चा १०, ११, २। °अण्यः इति JC.। b) गण् (यु १८) संस्थ. यनि. शीघ्रः इ.। c) घृ २, ११३, ७।
 d) 'अजया' इति अश्या.। e) तैश्चा १, २७, ४। f) माप.। g) व्युत्प. ✓अद्+ विवत् प्र. इति पाठयो.
 j) 'अणुअम्' इति अश्या.। k) °णिम्यः इति शांका ६, ११। l) तैश्चा १०, १०, ३। m) तैश्चा १०, ११।
 n) तैश्चा १०, ११, १। o) वृ. गण् घृ. २८७। p) °णम् इति अश्या. संदि.। q) उप. = ३रक-। r) 'तत्र
 च' °णम् इति अश्या.। s) °णुः वा इति सात.। t) 'अणुम्' इति सात.। u) ऐमां २, ७, १। v) तैश्चा १, २७, १।

अण्व्य-

✓अत्>अत- श्लेषम्^०
 अत(स>)सी- चम्पक^०
 १^०अतिथि- थिः क २, २, २; वपु
 २, ३. [०थि- मेध^०]
 आतिथ्य- यथोचित^०
 +अ-तट-स्थ- स्थः नाप ६, १.
 अ-तद्-धर्म->अतद्धर्म-त्व- -त्वात्
 सांस् १, ५२१^०.
 अ-तद्-रूप- नियम^०
 +१अ-तपस्- -पसा २प्र ३३:१०^०.
 २अ-तपस्- गप्. पु २१ द.
 अ-तल- तल^०
 +अति-कला- १रति^०
 अति/क्रम>+अति-क्रम- नियम^०,
 १प्राज्ञण^०, स्वधर्म^०
 अति-क्रम्य अन्^०
 +अति/गम्>अति-ग- भावना^०,
 शोक^०
 +अति/जागृ>अति-जागर- अति-
 स्वप्न^०
 +अति-तुरीय- निरन्तर^०
 अति-तेजो-रूप- ज्योत्स्ना^०
 अति-दूर- कर्मन्^०, जीवेश...धा^०,
 समस्तना...कर्मन्^०
 अति-नीच- ५न^०
 अति/प्रच्छ>अति-प्रश्न->अति-
 प्रश्न्य- अन्^० -
 अति-अ(ल>)ला- ४ब(ल>)ला^०
 +अति/मन्>अति-मानिन्->
 अतिमानि-ता- ५न^०
 +अति-मेध-विप्रह- -हम् १पु १,
 ५१^०.
 अति-रहस्य- ६५^०
 अति-रात्र- भेण वउ ५, १५.

अति/रिक्>अति-रिक्त, क्ता-
 कर्मन्^०, ज्ञान^०, देहत्रय^०, पात्र^०,
 वेदमर्यादा^०, वेदमार्गकर्मन्^०,
 संसार^०, सङ्ग^०, सर्वधर्म^०, सर्वव्रत^०,
 सृष्टि^०, हीन^०
 अति-रेक- रेतस्^०, शुक्र^०, शोणित^०,
 सत्ता^०, स्वपूर्णामर^०, स्वात्मन्^०
 +अति-रोचिष्मत्- १नन्द्^०
 +अति/व्यच्>अति-व्याधिन्-
 सपन्न^० -
 अति/शिप्>अति-शेष- कर्मन्^०
 अति/शी>अति-शय- अनन्त...
 श^०, १क्षय^०, निर^०, २भक्ति^०,
 लब्ध^०
 अतिशय-योग- लब्ध^०
 अतिशया(य-आ)ह्लाद- निरस्त^०
 +अति-शाधिन्->अतिशाधि-ता-
 मदाभि...ह^०
 +अति-श्रम- -मः घ्या २३, १२१^०.
 अति/सञ्ज>अति-सक्त- ५न^०
 +अति-साधन- २व्रज^०
 +अति-साम्राज्य- असंकल्प^०
 अति-सू(क्षम>)क्षमा- -क्षमाश्च तु
 २^०. [०क्षम- चिरंतन^०, सूक्ष्म^०]
 अति-हृद्ये- -र्थेण त्रिवि १, ५^०.
 +अति-ह्रस्व->अतिह्रस्वा(स्व-अ)-
 तिह्रस्वा(स्व-अ)तिह्रस्व- -स्वः
 वउ २, १८.
 अती[नि/१(गती)], अत्येति मना २,
 १२, ११५; २, ४-११५; ३, १, ११५;
 ११^०अति...पुति श्रे ३, ८; ६,
 १५.
 अती(ति-इ)त- -तेषु वउ ३, ३७.
 [०अ- अखिलकर्मन्^०, अखिल-
 प्रमाण^०, अनानन्द...ल^०, अवस्था-

त्रितय^०, अविद्यातिमिर^०, कला^०,
 २काल^०, कालत्रय^०, चक्राक्षर^०,
 गुण^०, गुणत्रय^०, चिन्मय^०, ज्ञाना-
 ज्ञान...य^०, तत्त्व^०, तद्^०, ताप-
 त्रय^०, तुरीय^०, १पुर्व^०, १त्रिकाल^०,
 १त्रिगुण^०, दिवारात्रि^०, देह^०,
 देहत्रय^०, देहेन्द्रिय^०, द्वन्द्व^०, ध्येय^०,
 नादविन्दुकला^०, नानानन्दन^०,
 पञ्चकोश^०, पञ्चब्रह्मात्मक^०, परा^०,
 परात्परा^०, ऋक्विष्णुद्युष्ट^०, १भाव^०
 भावाभावादिद्वन्द्व^०, भूयुग^०, मना-
 पट्टेन्द्रिय^०, महाभाया^०, माया^०,
 १रूप^०, विद्या^०, १विध^०, शब्द^०,
 शान्ति^०, शून्य^०, षट्त्रिंशत्तत्त्व^०,
 संसारज्ञान^०, संख्या^०, सर्व^०, सर्व-
 नादकला^०, सर्वभावपद^०, सुख-
 दुःख^०]
 +अतीत-गोचर- बाह्यमनस्^०
 +अतीत-भाव- अतीत^०
 अती(ति-इत्य मंत्रि ६, २२^०.
 +अत्य(ति-अ)य- कार्य^०, कृत^०,
 दुर^०, नाना^०, भाग^०
 अ(ति>)ती-द्वर्ण- -र्णम् सता ६,
 १^०.
 अ(ति>)ती-पान- -नात् गना १,
 १२१^०.
 +अ-तुर्य- १तुर्य^०
 +अ-तुल्य- तुल्य^०
 +अत्य(ति-अ)मिष्टोम- -मेन वउ ५,
 १४.
 +अत्य(ति-अच्छ>)च्छुा--च्छा अक्ष
 १, ३४.
 अत्य(ति-अ)न्त- एवान्त^०, पुटिमन्त^०,
 चिरकाल^०
 +अत्यन्त-विद्वृत्ति- द्विविधदुःख^०

a) गप्. (इ २१) अण्व्य- इत्यत्र यनि. शोषः द. । b) श्रे ४, ४०, ५१ c) पुत् इति पा. १ यनि. शोषः द. ।
 d) तस. । e) गप्. (इ ३५६) सत्य. 'तपस->पसा' इत्यत्र यनि. शोषः द. । f) वउ. । g) 'उपमध्वस्वत्मम्' इति
 श्रे २, २३, १ । h) आदिभ^० इति निसा. 'अन्धा. १ यनि. शोषः द. (इ. अन्धा. संदि.) । i) 'क्षमा इति अन्धा. ।
 j) इति ह^० इति निसा. । k) श्रे २, १६, ९ । l) अन्वे^० इति शोभा ३, ४^० । m) मा ३१, १८ (इ. टि. पति. वे ११
 स्रया.) । n) 'हृतीय' इति सात. । o) इ. गप्. पु ७१२, ८३ । p) तैमा १०, १, ११ ।

+अत्यन्त-भावन- अभाव°

+अत्यन्तो(न्त-उ)कृष्ट- जन्मजन्मा-भ्यस्त°

+अत्यन्तो(न्त-उ)स्रत-योधा-(ध-आ)नन्द-प्रासाद- तद-भ्य-न्तरस्थित°

अत्यन्तो(त-उ)स्रता(त-अ)नन्त-शिखर- वाचामगोचर...वी-पित°

अत्या(ति-आ)शन- नात् मना १, १३५°

+अत्यु(ति-उ)ञ्च-नीच- ५न°

+अत्यु(ति-उ)ञ्च-नीचा(व-आ)यत- ५न°

अत्यु(ति-उ)च्छ्रुत- ५न°

अत्यु(ति-उ)ष्ण- कृट्°

अथ वृ ५, १५, १५^३; गर्भे ४^३; अशि ७०^३; कौ १, २४^३; अना २७^३; योशि १, ६९^३; १कौल २: १^३; २कौल १; वर १, १.

अथो(थ-उ) के छां आक मै मैत्रे योचू वा महा अव्य १संन्वा कुं सावि रुजा जाद जावा शो^३; अशि ७०^३.

√अथर्> अथर्->अथर्व(र-व)-वै: वपू १, ७^३. [०वै- ऋच्°°] अथर्वन्-वर्ण: अशि ६, ७^३; वर्णम् अ १^३; वउ ५, १७. [०वर्न्- ऋच्°°, १भ्रान्°]

आथर्वण- ऋच्°°

+आथर्वण-महानारायण-

परम...ख्य°

+आथर्वण-वेद- सर्व-मन्त्रार्थ°

+आथर्वण-शाखा-

देवदर्शीत्याख्या°

+अथर्व-पुत्र- -प्राय वपू १, १^३.

अथर्व-वेद- -दे वउ ६, ५५.

+अथर्व-शिक्षा^{११}- २प्रश्न°

अथर्व-शिर:-शिक्षा(ख-अ)-ध्यापक-सम- -मम् वउ ५, २४.

+अथर्व-शिर:-शिक्षा(धा-अ)-ध्यापक(क-ए)का(क-अ)धिक-शत- -तम् वउ ५, २५.

अथर्व-शिरस^{११}- २प्रश्न°

अथर्व-शीर्ष- पद्यन्°

अथर्वा(र्व-अ)क्विरस- ऋच्°°, १स्य°

√अद्, अत्ति सुं ३, १, १५^३; अत्ति कौ २, १^३; अशि प्रा १, ५°.

अत्ति- -त्ति: वृ २, २, ४^३.

अत्रिं- १भ्रान्°, २वसिष्ठ°

आत्रेय- -य° [०य- ऋणि°, चन्द्र°, ३दत्त°, सुनीन्द्र°]

+अत्रि-युल°

+अद्- कव्य°

+अद्- अज्ञ°, कव्य°, तृण°, निप्लत°, ब्रह्मानन्दरसाज्ञ°, १मधु°, हविष्याज्ञ°

+अद्न- अज्ञ°, रिधि°

+अद्य- अद्य°

अद्यमान- अन्°

अद्य- -ज्ञ: मैत्रि ५, १^३; -भम् मना २, ३५^३; अशि ७०^३; कुं २३: १^३; नाउ १, १६५^३; वउ २, ३४;

-ज्ञात्तुं कुं २३: १^३; नाउ १, १६५^३; वउ २, ३४; -घाय वपू १, ३.

[०अ- अन्°, अभक्ष्य°, असंखल-समाधुकर°, असृष्ट°, एक°, १काम°, २जल°, तिल°, दग्ध°, पक्क°, पर°, पायस°, ब्रह्मानन्द-रस°, भक्ष्य°, भैक्ष°, मीमादि°, १वमन°, वि°, व्योमन्°, शालि°, शुष्कस्निग्ध°, शुद्ध°, शूद्र°, श्रो-त्रिय°, संस्कृत°, सर्व°, सर्वभूत°, सिद्ध°, सूतक°, स्त्री°, हविष्य°]

+अद्य-द- -द: वपू १, ६; ५.

अद्य-पति- -तये वपू १, ३.

अद्य-पान-पर- -र: १संन्वा २, ९५^३.

अद्य-पान-वस्त्र- हीन°

अद्य-पूर्णा[>]र्णा- -०र्णे अद्य १, ६^३. [०र्णा^{११}- २प्रश्न°°]

अद्य-मय->अद्यमय-कोश-

-शे ससा १, १३^३.

+अद्यमय-स्व- तद्°

अद्यमय-प्राणमय-मनोमय-

विज्ञानमय(य-आ)नन्दमय-

कोश- -ज्ञा: ससा १, २^३.

+अद्यमय-रस- नाना°

अद्य-रस-विज्ञान- -ज्ञात्तम् कौ ३, ८९^३.

a) 'तात्' इति शांभा ३, २ । f) 'मनः' इति आन. । g) 'ज्ञः' इति आन., अख्या. । d) अख्या: शै. अया. । शोष: द. । i) पाप ३, १५, २३ । j) 'वंशिरः' इति अख्या. । k) 'ॐ' इति आन. । h) गपू. (इ२८) कौल७>यनि. पंदिशेय- । m) श्र १, १५४, २० । n) 'उत्थितेन' इति अख्या. । o) गपू. (इ१०) सस्य. 'अनि->-निनः' इत्यत्र यनि. शोष: द. (तु. आन.) । p) गपू. (इ२९) यनि. शोष: द. । q) गपू. (इ२७) यनि. शोष: द. । r) 'मनः' इति गत. । s) तैसा १०, ३, १^३ । t) अख्या: शै. अया. । u) अख्या: सं. अया. (गपू. इ२९ सस्य. १४ इति परिहर्तव्यम्) । v) तैसा ८, १, १ । w) 'ब्रह्मानं' इति अख्या. । x) उत्तरेण संधिपर्यः । गपू. (इ३०) सस्य. 'र्णा'>यनि. शोष: द. । z) 'यं को' इति आन. । 1) 'अद्यमयः प्राणमयो मनोमयो विज्ञानमय आनन्दमयः' इति आन. । a) 'रसस्य वि° इति आन., शांभा ५, ८ ।

+अद्-रसा(स-आ)दिक-मुक्त^०
 लक्षा(ल-अ)द- -दम् कौ २,
 १^५.
 +अक्षा(ल-अ)दन- एकत्र^०, एक-
 रात्र^०
 १अक्षा(ल-अ)घ- गपू १३० द.
 +२अक्षा(ल-अ)घ^०- -घा: वपू
 १,२^१; ४^१, ५.
 थ-दर्शन- अस्फुरण^०, जिह्वाम^०,
 २दर्शन^०
 अद्स्- > अमी- मी रांपू १, ११^०.
 अमु- -मुपमाव कौ २, ३^५; -मुप्य
 मना २, १९^०.
 अमुक- कस्मै गोट १^१.
 अमुत्र अह २७९^०. [०त्र इह^०]
 अमुन्मिन् > आमुन्मिक-
 ऐहिक^०
 असौ- -सौ वृ ५, १५, १९^५.
 अ-दिति > आदित्य- -स्य: ९मना
 १, १०; कौ २, १२२; त्रिवि ७,
 ४४^५; व ४६३: ६९^५; वपू १,
 ६; -स्यस्य मैत्रि ६, ३५^५; -स्या:
 कौ २, ८^५; वृ ३, ४; वपू १, ६;
 ३, १; -स्याय मैत्रि-६, ३५^५;
 ९मना २, ३-५; मउ ३, १०; -स्ये
 मैत्रि ६, ३५^५; वपू २, १; -स्यै:
 अह ४९^५; ५९^५. [०स्य-अपान^०,
 चन्द्र^०, १चिन्^०, चिद्रूप^०, जगत्^०,
 तरण^०, द्वादशन्^०, प्राण^०,
 १मक्षन्^०, मार्ताण्डादि^०, १मित्र^०
 १द्व^०, वडु^०, वडु^०, वापु^०,
 वीरभर^०, सहस्र^०, ३हस्त^०]
 आदिश्य-मरीचि- १हृद्

आदित्य-लोक^०- -कम् वपू ३, १.
 +अ-दु:ख- दु:ख^०
 +अ-दृक्- -दृक् मवा ३१^०.
 अ-दृश्य- अन्य^०, दृश्य^०
 अ-दृष्ट- -ष्टम् वउ १, १३. [०ष्ट-दृष्ट^०]
 +अ-दृष्टि- १अन्ध^०, प्रत्येक^०
 अ-देह- सदेह^०
 अद्-भुत- -अति^०, अनेक^०
 अद्भि- उदय^०, वाहन^०, गुग्गुलु^०,
 गोवर्धन^०, हिम^०, हेम^०
 अद्भि-जा- -जा: वपू २, ३९^०.
 अ-द्वय- -यम् ते ६, १^५. [०य- १नि-
 त्य^०, महानारायण^०, २सच्चिदा-
 नन्द^०, १सत्य^०]
 अद्वय-तारक^० - ईशावास्य^०
 अ-द्वितीय- अनन्त^० उव^०, १चिद^०,
 २निरतिशयानन्द^०, २सच्चिदा-
 नन्द^०
 अ-द्वैत- -त: वउ २, १५; -तम् त्रिवि
 १, ५^५; वउ १, १५; ४, ६; ५,
 ४०. [०त- अखण्ड^०, अनित^०,
 कर्मन्^०, १द्वैत^०, निरतिशय^०,
 निस्तरत्र^०, परम^०, १मद्वन्^०,
 १भाव^०, १शिव^०, शुद्ध^०, १सत्^०,
 सर्व^०, सर्वपरिपूर्ण^०, सर्वोत्कृष्ट-
 त्य^०]
 अद्वैता(त-आ)मन्द-रूप- सर्वदा^०
 √अप् > अध्वन्- वीर^०, पप्^०
 अध्व-ना- अन्^०
 अध्वर- अध्वन्^०, एक^०, महत्^०
 √अध्वर्षे > अध्वर्षु- रनातक^०
 अ-धर्म- -र्म: १चौ ३: २^१. [०र्म-
 जरा^०, धर्म^०, धर्म^०, मत^०]

अधर्म-कारणा(ण-अ)ज्ञान- -नम्
 १चौ ३: १^१.
 अधस्- -घा: ऐ ४, ५९^५; जाद ३, ६,
 १^५. [०धस्- ऊर्ध्व^०, २कन्द^०,
 कल्पद्रुम^०, १काम^०, कूर्पर^०,
 गोवर्धनादि^०, तद्^०, तिर्थन्^०,
 १भरत^०, मदन^०, वट^०, रात्रुम^०,
 १सूर्य^०, स्वासन^०]
 +अध-ऊर्ध्व-भाग- कुराएली^०
 +अध-प्रदेश- -शे षउ ४, २८.
 अधस्तात् १शिव^०
 अध: स्थित- २पारर्व^०
 अधो(धस्-अ)श-जल^० व्यत्त^०
 अधो-भाग- तद्^०, पाद^०
 अधम- अधम^०, उलम^०, द्विज^०,
 नर^०, स्वपत्न^०, साधक^०
 १अधर- -रे छां ४; १, ४; ६.
 अधरो(र-ऊ)र्ध्व-पादा- पीठ^०
 अधरो(र-छो)ष्ट-विम्ब^०, लोमन्^०
 २अधर-विम्ब^०, श्रोत्राधा^०
 अधि मना १, १५९^५; नाप ४,
 ३८९^५.
 अधि-क- -क: त्रिवि २, १६; वउ ४,
 ४. [०क- अभि^०, एक^०, एक
 सन्तति^०, कोटिकोटियुण^०, तपम्^०,
 दशन्^०, द्वादशाङ्गुल^०, नवन्^०,
 १फल^०, १त्राङ्गुल^०, १विद्व^०,
 शत^०, सार्ध^०, स्व^०, स्वयम्^०]
 अधिचय- प्रतिद^०, प्रेमन्^०,
 भरमन्^०, स्नेह^०
 अधि/कृ > अधि-करण- न्याय^०,
 पञ्चन्^०, पूजा^०, मन्त्रजप^०,
 मैशुन^०, १समान^०, स्तोत्र^०

a) 'भन्ववाद्दम्' इति श्रव्या । b) वस । c) पा: 'अधि' इति शोध: द: । d) 'तस्मात्' इति श्रव्या ।
 e) तेषा १०, ७, १ । f) 'मनु: कस्मै' इति श्रान । g) तेषा १, २७, ४ । h) वा ४०, १, १६^५ । i) तेषा १०, १, १; ७ ।
 j) 'मर्थै: इति श्रव्या । k) तेषा १०, १५, १ । l) तेषा १०, १, ७ । m) 'अत्पाय:' इति श्रव्या: । n) 'सूर्याय'
 इति तेष ७, ५, २४, १ (व. टि. परि. वैप १ यस्या:) । o) तेषा १०, २-४, १ । p) मा ४०, १७ । q) श्र १०, १५७, २ ।
 r) श्र १०, १५७, ३ । B) वस । उप. भाष. द: (व. गपू १-१) । t) वृ. वैप १, १२५८ (१) श्र ४, ४०, ५ ।
 u) 'अध्वयम्' इति श्रव्या । w) =तदाद्यथोपनिषद्विषेय- । x) सद्मे इति निमा । y) पट्ट. (२१६) गस्थ. यनि.
 शोध: द: । z) श्र ४, २७, १ । a') श्रव्या: वो. शया । b') श्र ९, १७, ४० । c') तेषा ७, ४, १ ।

अधि-कार- अन्°, अन्व°, १इतर°, उपदेश°, ध्यान°, प्रणव°, मनु-
प्य°, मन्त्रजप°, महावाक्यो-
पदेश°, यथा°, यावत्°, २५डङ्कर°
अधिकार-रूप-शब्दान्तर-
-रेभ्यः ब्रम् २, ३, १२.

अधिकारिन्- अन्°, १ओकार°,
कर्मन्°, कामकला°, १चरण°,
चिन्तामणिविद्या°, तद्°, दुर्या-
घोटा°, ५न°, निरालम्बयोग°,
परमहंस°, परिव्रजन°, विद्या°,
विद्याराज्ञी°, पोढान्यास°, संन्या-
स°, सर्व°, सिद्धकाली°

अधि/गम् > अधि-गत- सकल...
स्य°

अधि-गम- अध्यात्मयोग°, अध्या-
त्मविद्या°, तद्°, प्रत्यक्चेतन°,
वेदविद्या°, सम्यग्ज्ञान°
+ अधि-गम्य- साध्ययोग°

अधि/दग् (दनि), अधि...दद्रे
वा ११३°.

अधि-देव-> अधिदैविक- केन
सार २५३:२. [°क- आध्या-
त्मिक°°]

अधि-देवता- ता भा २६१°. [°ता-
५अच्°०, अपार...ज्य°, चैत-
न्य°, निरति...ण्य°, प्रति°]

अधि-दैव- अधिभूत° विनायक°

अधि-दैवत- अनन्त...ज्य°, अपर-
...ज्य°, अष्टमात्रा°, कार्तिकेय°,
१नवरत्निक°, सप्तमाला°, सर्वदेव°,

अधि-नाथ- रक्ष्°

अधि-पति- अन्य°, १खेचर°, २तारा°
पृथिवी°, १मन्त्रन्°, २भुवन°

भूत° भूमन्°, माघादि...मास°,
२यज्ञ°, रक्षस्°, लोक°, सर्व°,
सर्वलोक°

अधिपत्य- गण°, १देव°, १मन्त्रन्°,
भूमण्डल°, विष्णुलोक°, सल-
लोक°, सर्व°, सर्वदेव°

अधि/पा(रक्षणे) > अधि-प, पा-
अभीष्टगण°, १करण°, करणा-
धिप°, कारणकारण°, गण°,
१जन°, नर°, प्राण°, १विध°,
१ममदीप°

अधि-भूत-> अधिभूता(त-अ)धि-
दैव- ६म°

अधिभौतिक- भाष्यात्मिक°

अधि-मात्र- सृष्टि°°

अधि-यज्ञ- ६स°

+ अधि-राज- सर्वदेव°

अधि/रक्ष > अधि-रक्ष- ज्ञानज्ञव°,
प्राण°, शव°

अधि/वच्, अध्युच्यते कुं २०:७५°.

अधि/वस्(निवासं) > अधि-वास-
सर्वभूत°

अधि/ष्टा(<स्था) > अधि-ष्टा-
चतुर्गुण°, सर्वभाव°

अधि-ष्टान- नम् वृ २, ४. [°न-
उपनन्दादि°, कन्दुकलीला°,
क्रीडा°, अशोतिरादि°, तद्°, त्रि°,
२दधि°, दधिविक्रय°, दान...
लीला°, ५न°, परम°, पुरुषोत्तम°,
पुरुषोत्तम...रमण°, प्रेमानन्द-
...म°, मद्°, रमणलीला°,
२लीला°, १विध°, इष्टमानुपूर...
२°, ६स°, सर्व°, स्व°]

अधि-ष्टायिन्- जाग्रद्दशा°, स्फुर-
तादृश°, स्वप्नाव...दशा°

अधि-ष्टित- -तम् त्रिता २, ६४°.
[°त- अन्°, अन्य°, ईश°,
ईश्वर°, उपस्थ°, क्षेत्रज्ञ°, गुद°,
गुह्यकाली°, नवनाथ°, पाणि°;
पाद°, लोक°, १वाच्°, हिरण्य-
गर्भ°]

+ अधि-ष्टिति- स्वामिन्°
अधी[धि/इ(अध्ययने)] > १अधि,
अधीते वृ ५, ५; ९; १६;
१७:१९:२०; ६, ५०:; अधी-
यन्ते २२ ३६:११५°; अधीमहि
२२ ३५:२३५°.

अधी(धि-इ)त- -तः जावा २२°.

[°त- अन्°]

+ अधीत-नाति- अन्°

अधीत-वेद- अन्°

अधी(धि-इ)यान- -नः भ १, ११°;
सं २२; रुजा ४९:१. [°न- १सत्°]

अध्य(धि-अ)यन- अनध्याय°, भार°,
२वेद°, व्याख्या°, २श्रवण°,
स्वशाखा°

अध्या(धि-आ)पक- अर्धवैशिरः-

शिखा°, गणेश...पद्°, तापनी-

योपनिषद्°, बृहज्जाबालोपनि-

षद्°, मृतक°, मन्त्रराज°

अध्या(धि-आ)पित- -ताः ३:५५°.

अध्या(धि-आ)य- अन्°, दृष्ट°,
१हृत्°, शिखा°

+ अध्यायिक- -काः इ १५:२१°.

+ अध्या(धि-आ)यिन्- २हृत्°,
२वेद°, सर्ववेद°, सहस्रशाखा°

+ अधी-धी- -धियाम् अङ् २३°.

अधी(धि-इ)न- अर्धकारकृत्°, ईश्वर°,
एकैकरण°, तद्°, देव°, पर°,
मनश्चतुर्°, माया°, स्व°

a) भवा. श्राव. पाषा. उरसं. b) कर्तारि लिटि प्रपु १ रुद्रागमः (पा ७, १, ८) । 'विच्यन् ऊतीर्दाशुपोमेऽवः
कोऽधि(=ति)दद्रे' इति वा. [वेद. बाटी. अधि कप्र. इति च 'दद्रे' (किप.) इति च कृत्वा वा.] c) धीः दे°
इति निता. ? यनि. शोषः द. (वृ. अश्या.) । d) गृ. (इ ६) ५अस- (=इन्द्रिय->) अक्षा(त्र-अ)धिदेवता-रूप->
-सैः इत्येवं शोषः द. । e) अश्याः सं. अपा. (शो ११, ८, ३४) । f) सकृन् 'उदृष्ट' इति अश्या. गृ. (इ १९) यनि.
शोषः । g) पा. १ भाधी° इति गोत्रा १, १, २८ । h) 'महे इति गोत्रा १, १, २७ । i) अश्याः शै. अपा. । j) 'वयमानः
इति अश्या. संटि. । k) वाप २, ११ । l) 'ध्यायिके' इति पा. १ यनि. शोषः द. । m) वस. ।

अधी(धि-ई)श- क्षेत्र°, तद्°, संघटन°
 +अ-धुर- रम्° पा ४, २.

अ-धूमक- -मः क २, १, १३^b.

अध्य(धि-अ)क्ष- अकारादिस्वर°,
 °अक्ष°, अमिमान°, कर्मन्°,
 कोटिकोटिगण°, क्षेत्र°, तद्°,
 लोक°

अध्य(धि-अ)व/स्रो/सा>अध्य-
 व-साय- निर°, प्रतिविपय°,
 संकल्प°, संकल्प°

अध्य(धि/अ)स्/क्षेपणे>अध्या-
 (धि-आ)स- इतरेतर°, गिर्या°,
 विरुद्धधर्म°, सर्व°, स्व°

अध्या(धि-आ)त्म- -रम् १ नील ७:
 १; २ नील ४^a; २. [°स्म-
 ईशानास्य°, नादविन्दुकला°,
 १स्य°]

अध्या(धि/अ)स्/अध्या(धि-आ)-
 सित- वीरासन°

√अन्(गती)>अन- -नौ प्रा २, १°.

अनल- लः राप् ४, ६२^b. [°ल-
 आवापाश°, उदय...म्ब°, क्यटो-
 रियत°, २काल°, रह°°, चिन्ता°,
 तुण°, दाव°, दीर्घ°, देह°, धातु°,
 नीहार°, ३वडवा°, विरज°,
 व्योमन्°, शीर्षादित°]

अनल-बर्चम्- -वैसा लु १८^b.

+अनला(ल-अ)कै- दीप्त°

+अनला(ल-अ)स्त-युग- तद-
 न्तरालिक°

अनिल- लः राप् ४, ६२^b, -लम्

इ ५, १५, १५^b. [°ल- रत्न°,
 द्वादरात्°, धातु°, निरुद्धात्°,
 नीहार°, चिह्नल°, पृष्ठी°]

प्राणादि°, बाह्य°, मन्द°, महान्ध-
 कार°, व्योमन्°, सर्वपाठगत°]

+अनिल-ज¹- १ अङ्ग°°

+अनिला(ल-आ)याम¹- पूर-
 कादि°

+√अन्(प्राणने)>आनि अनुप्र°,
 अप°, अभिप्र°, अभ्यप°, उद्°,
 उदा°, वि°, व्या°, सम्°

+अन्- ज°°

+अनत्- प्र°

+अनन- प्र°

+अनित- अभिप्र°, अभ्यप°

+अनितुम् प्र°

+अनित्वा प्र°

+°अन्ध अभिप्र°

+अन- अनुसंदित°, अप°, उद्°,
 वि°, सम्°

+आनयितव्य- वि°

+अन(र-अ)प्रिचित्- अनग्रिहोमिन्°

१अनघ- गप्. पृ४१ द.

२अनघ¹- १नन्द°°

अन(र-अ)ङ्ग- चन्द्र°, १तार°°

+अनङ्ग-कुसुमा(म-आ)घ(दि-अ)-
 टक- ६स°

अनङ्ग-गावत्री- -श्रीम् गोप् १८^b.

अनङ्ग-माला->अनङ्गमाला(र->)-
 नी-

+अन(र-अ)ध्याय->अनध्याया-
 (य-अ)ध्ययन- जेन २ प्र ३३:
 १°.

+अन(र-अ)नुस्वारि(र->)णी-

विधिनियमार्ग°

अन(र-अ)नूचान- न्नाय मुद्र ४¹.

अन(र-अ)न्त¹- -न्तः मैत्रि६, २८^{1a};

वउ२, ३०; -न्तम् नाउ१, १४^{1b};
 -न्तम् त्रिवि ४, १४^{1b}. [°न्त-

अत्यन्तोन्नत°, अदृष्ट°, अनादि°
 अपरिच्छिन्न°, अमित°, आधार-
 शक्ति°, आह्लाद°, इन्दु°, कौ-
 स्तुम°, गणेश...दि°, दैत्य°,
 धर्म°, १नित्य°, निरतिशय°,
 निरतिशयनिर...दि°, निरतिशया-
 नन्दमय°, पर°, १फल°, बोधा-
 नन्दमय°, ब्रह्मज्ञेजोमथ°, ब्रह्म-
 विद्या°, ब्रह्मानन्दमय°, वाचामगो-
 चर°, विविध°, १शङ्ख°, शुद्धा-
 मन्द...विशेष°, ६स°, १सत्य°,
 सर्वपरिपूर्ण°, स्थूलस्...दि°,
 स्वानन्दमय°]

+१अनन्त-कर¹- -रैः वउ ३, १३.

+२अनन्त-कर¹- -रम् वउ ४, २१.

अनन्त-कोटि- अतिनिर्मल°

+अनन्तकोटि-रवि- युगपदुदित°

+अनन्त-गण- परम...प°

+अनन्त-गुच्छ-फल- निरन्तर...
 न्द°

+अनन्त-खोर-प्रलय-ज्वालाभि-
 रौद्र- भी°

+अनन्त-चित्त-सागर- २विदा-
 नन्द°

+अनन्त-जडर- -रैः वउ ३, १३.

+अनन्त-जन्मा(म्-अ)म्पस्त-

कुतिसत°

+अनन्त-सहित्-पर्वत- २निरति-

शयानन्द°

+अनन्त-दिव्य-सूर्यमण्डलान्तर्गत°

अनन्त-दिव्य-वीर्य- पुरतःस्थित°

+अनन्त-दिव्य-तेजम्- परममज्जल°

a) वा. किवि. द. । b) गप्. (पृ४०) सस्य. यनि. शोषः द. । c) गप्. (पृ६) '५प्रक्ष-(=इन्द्रिय-)>अक्षा-

(स-अ)ध्यक्ष->अक्ष- इत्येवं शोषः द. । d) °स्मः इति पा.। यनि. शोषः द. । e) गप्. (पृ४१) यनि. शोषः द. ।

f) =रेफ-योगाक्षर- । g) अमलव° इति भ्रान. । h) =यकार-बीजाक्षर- । 'अनलः' इति भ्रान. । i) मा ४०, १५ ।

j) =गोपविशेष- । k) °ङ् पा° इति भ्रान. । l) अन्त्वा° इति पा.। यनि. शोषः द. । m) विप. वा नाप. वेति वप्र. ।

d. । n) सङ्ख. 'आनन्दा' इति सात. । o) तैसा ८, १, १ । p) °तानि इति अन्त्या.। यनि. शोषः द. (द्र. निता.) ।

q) कत. । उप. =२कर- । r) वस. उप. =२कर-

अनन्त-दिव्या(व्य-आ)राम-
चिदानन्दमय°
*अनन्त-देह- विविध...ए°
*अनन्त-धूप-दीपा(प-आ)वलि-
बोधानन्दमय°
*अनन्त-नाना-गण- शिवानन्द°
दि°
*अनन्त-परम-च्छत्र-ध्वज-चामर-
वितान-तोरण- बोधानन्दमय°
*अनन्त-परम-विलासविभूति-
विशेष- बोधानन्दमय...र°
अनन्त-परमानन्दा(न्द-अ)मृत-
रसा(स-अ)न्धि-कल्लोल-
तरङ्गा(ङ-आ)वलि°
*अनन्त-परिपालक-नन्द्यादि-
गणप- -पा: सि १, १५.
*अनन्त-पर्वत- क्रीडा°
*अनन्त-पाद- -दै: वउ ३, १३.
*अनन्त-पुष्प- आनन्दा...कल्लोल°
*अनन्त-पुष्प-माल्य- चिदानन्द-
मय°
अनन्त-प्राकार- दिव्य°, सारतर°
*अनन्त-प्राकार-प्रासाद-तोरण-
विमानो(न-उ)पवान(न-आ)-
वलि- ब्रह्मानन्दमय°
*अनन्त-प्राकार-विशेष- चिदा-
नन्दमय°
*अनन्त-प्रासाद- छुद्रबोधमय°
अनन्त-फल- दुःखाज्ञान°
अनन्त-बोधा(ध-आ)नन्द-इयूह-
-दै: त्रिवि ६, २०°
*अनन्त-मय-प्रपञ्च- पथीकृत°
*अनन्त-मंकरन्द- निरतिशया...
सागर°
*अनन्त-मण्डप- क्रीडा°

२अनन्त-रूप- -पम् मना १, १५°;
वउ ४, २.
*अनन्त-वस्तु- पर्वत...दि°, वि-
रुद्ध...दि°
अनन्त-विभूति- भगवत्°
*अनन्तविभूति-समष्टि- अत्या-
धर्य°
*अनन्त-विमान- आनन्दमय°
*अनन्तविमाना(न-आ)वलि-
परमा...य°
*अनन्त-वीर्य(र्य-अ)मित-विक्रम-
-म: गी ११, ४०°.
अनन्त-वैकुण्ठ- -गठान् त्रिवि ६,
२०.
१अनन्त-शक्ति- महामण्डूकादि°
*अनन्त-शाखा- महावा...प°
*अनन्त-शिखर- आनन्दमय°,
परम...प°
*अनन्त-शीर्ष- -र्यै: वउ ३, १२.
*अनन्त-संघ- महानलौ...बुद्ध°
*अनन्त-संज्ञा(>)ज्ञ- -ज्ञ: विधा
२१°.
*अनन्त-समापत्ति- प्रयत्नशैथिल्य°
अनन्त-समुद्र- परमानन्द...य°
*अनन्त-सोपान- विज्ञानानन्द...प°
*अनन्त-स्कन्ध- वेदान्त...न्त°
*अनन्ता(न्त-आ)कार- इत्यादि°
अनन्ता,न्त-आ)नन्द- आत्मस...
प°,शिवानन्द...ण°,स्वप्रकाश°
*अनन्तानन्द-विमान-जाला-
(ल-आ)वलि- निरपम...प°
*अनन्ता(न्त-आ)नन्द-पञ्च- सचि-
दानन्दस्वरूप°
*अनन्तो(न्त-उ)न्नत- शिवधर्म°
अन(न्-अ)न्तर- उपनयन°, चित्त-

तोपण°, तद्°, पय:लाव°,सत्र-
यागपूर्ति°, संन्यास°
अ-नन्द- -न्दा: क १, १, ३°.
अन(न्-अ)न्य- सर्व°
अनन्य-चित्त->*अनन्यचित्त-
रव- -स्वेन भा ३०°.
अनन्य-रव- तद्°
अनन्य-धी- -धी: वपू २, ५.
अन(न्-अ)पेक्ष,ज्ञा- अश्रीग्यनादि°,
अन्य°, सर्वनिमित्त°
*अन(न्-अ)भिघात- तद्धर्म°,द्वन्द्व°
*अन(न्-अ)भिध्यायिन्- अनभिद्यो-
त्रिर्°
*अन(न्-अ)भिलाप- १फल°
*अनरएय- बुधन्न°
अन(न्-अ)र्थ- जन्मव°
अन(न्-अ)र्थक->आनर्थक्य- विशेष-
पण°
अन(न्-अ)वकारा- अन्यस्मृति°,
१स्मृति°
अन(न्-अ)वच्छिन्न- जाति...समय°,
दिक्कालादि°
*अन(न्-अ)वच्छेद- अन्यता°
*अन(न्-अ)वधारण- उभय°
अन(न्-अ)वस्थ- -स्थ: मैत्रि ४, ३°.
*अन(न्-अ)वस्थान- १मनस्°
*अन(न्-अ)वस्थित- -तम् अशि ४°.
अनवस्थित-रव- व्याधि°
अन(न्-अ)वस्थिति- व्यतिरेक°
अन(न्-अ)शन- साशन°
५*अन(न्-अ)श्रुत्- -अन् सं ३, १, १;
भव २, २.
अन(न्-अ)श्रुयत्- -वत् आप्ये ७:३°.
*अनस(<अनस्-) महत्°
अन(न्-अ)सुरि- -रि: छा ४, ३, ७.

a) ग० (४४१) वरङ्गा(ङ-आ)वलि- इवञ्च यनि. शोच: द. । b) °धान्वरबोधा° इति निशा. । c) तैश्चा १०, १, १ । d) ग० (४४४) 'अनन्त-वीर्य-> -र्य' इत्यत्र यनि. शोच: द. (वैतु. मोर. पदद्वयमित्ति) । e) अनन्त-रांजा° इति पा.१ यनि. शोच: द. (तु. मां ४ 'अन्ता:मञ्ज:' इति) । f) पाभे. कृते तु. टि. 'असुर्य-> -र्य.' (तु. टि.प.रि. पैप१ रस्या.) । g) तात्त्रि. अया. । h) 'अवस्थ:' इति सात. । i) अय्या: शै. अया. । j) अ १, १६४, २० । k) °न(िच)वत् इति वे. । l) 'न वजु:' इति जैउ ३, २, ४ (तु. टि. वै २ रस्या.) ।

अन(न्-अ)हंभाव- अहंभाव°
 *अना(न्-आ)कार- -रः हं ६°.
 अना(न्-आ)गत- अतीत°
 अना(न्-आ)त्मन्- स्मनः सता
 १, ४^७. [०न्- अनिल०°,
 आत्मन्°]
 *अ-नाथ- विषया°
 अनाथ-नाथ- -धम् वपू १, ५.
 अना(न्-आ)दर- तपू°
 अना(न्-आ)दि- १आदि°
 *अनादि-बुवांसना-प्रस्थि- हृदय-
 स्थित°
 *अनादि-भूत- -तम् वउ ४, २.
 *अनादि-मूल- क्षणरस्य°
 अना(न्-आ)द्यन्तव(त्)ती- ती°
 मन्त्रि ५, ६.
 अना(न्-आ)धार- -रः वउ ३, ६०.
 अना(न्-आ)धेय- -यः वउ ३, ६०.
 अना(न्-आ)नन्द- आनन्°
 अ-नाना-नन्दन(न्-अ)तीत-
 -तम् ते १, ८°.
 अ-नामक- > अनामिका- अन्वोन्°,
 तर्जनी°°, मन्थमा°
 अना(न्-आ)रम्भ- -म्भम् आर्षे ७:
 १६.
 *अना(न्-आ)विक- -कम् १संन्या २,
 १५.
 २अ-नाशक-> अनाशक-क->
 अनाशकिका-> अनाशकी-
 -की अर २६५°.
 २अना(न्-आ)हत- विकित्रघोषसंयुक्त°
 अ-निकेत-निवासिन्- स्त्री या २,
 १^४.
 अ-निकेत-स्थिति- -तिः वहं ४^१.

अनि(न्-इ)च्छा- -च्छायाः २कौ १२.
 अ-नित्य- -स्वम् १कौल ३: १^१. [०त्व-
 १नित्य°]
 *अनिरय-कर्म-लोप- -यः २कौल
 १०.
 *अनित्य-ज्ञान- -नम् २कौल ३.
 अनिल-त्व- उभय°, नित्यत्व°
 *अ-निन्दा- -न्दा २कौल ५. [०न्दा-
 निन्दा°]
 अनि(न्-इ)न्धन- -नः शा २१^६.
 अ-नियम- अष्ट°, तनिर्धारण°,
 नियम°, मुक्तिफल°
 अनि(न्-इर)रा- -रा वउ ४३: २०५^१.
 अ-निराकरण- -णम् ह २०५^३.
 अ-निराश- -शः मैत्रि ६, २०°.
 अ-निरुक्त- -क्तम् व १°.
 अ-निरुद्ध- १राम°, वासुदेव°
 अ-निर्देश्य- -इयः मैत्रि ७, १^७; वउ
 ३, ६१.
 अ-निर्वचनी(य)या- -या वउ ४, ८
 अ-निर्वाच्य, च्या- -च्यम् वउ २,
 २९; -च्या वै १, ५.
 अ-निश- -शम् त्रिवि ६, २०°.
 अनि(न्-इ)ष्ट- १इष्ट°
 *अनिष्ट-संप्रयोग- १काम°°
 अनीक- पारुडव°, प्रति°, स्व°
 *अनी(न्-ई)प्सित- ईप्सित°
 अनी(न्-ई)श- ईश°
 *अनी(न्-ई)हा- ईहा°
 अनी(न्-ई)हित- ईहित°
 अतु धे २, १६५°. [०तु तद्°]
 अतु/कम्प>अतु-कम्पा->अतु-
 कम्पा-सिन्धु- महत्°
 *अतु-कम्पिन्- २भक्त°

अनु-कूल- तद्°, १मनस्°, स्वात्म-
 निष्ठा°
 अनु/कुं> *अनु-करण- प्रति°
 *अनु-कार- चितस्वरूप°
 *अनु-कारिन्- चित्त°
 *अनु/कृत्>न्व>अनु-कृन्तन-
 मर्मजहा°
 अनु/कृत्>कीर्तिं अनु-कीर्तन-
 राममन्त्र°
 अनु-क्रम- आकाशादि°, केशवादि°°
 ति°, व्युत्क्रम°
 अनु/गम्> *अनु-ग, गा- आशा-
 वश°, कर्मन्°, कर्मवश°, मनोगा-
 शवश°, वश°, ६स°, सर्वहृदय°,
 स्ववद°
 अनु-नात- अष्टदल°, कम°, ध्यान-
 योग°, बगलादिबोडशस्°, स्व-
 शासा°
 *अनु-मति- विरोध°
 अनु-नाम- वितर्क°°त°
 अनु-गामिन्- तृष्णाभावा°
 *अनु-गुण- तद्विपाक°
 आतुगुण- मयवसंबल्य°, २योग°
 अनु/गृह्, गृह>अनु-गृहीत-
 -आदित्यादि°, ईधर°, हार्द°
 अनु-ग्रह- गुरु°, तपद्देवता°, तद्°,
 १३व°, - निप्रह°, निमेष°°,
 २भक्त°, मद्°, रेफ°, लोक°,
 विशेष°, सर्व°
 *अनु-ग्रहण- ४नित्र°
 *अनु-ग्रहक- अनुमात्र°, सर्व°-
 अनु/चिन्त>अनु-चिन्तन- अगा-
 धन°
 अनु/जन्>अनु-ज- १राम°, ६स°

a) गपू. (पृ४७) 'अनागार->-रः' इति निशा. गमे. । b) 'त्मनाम् इति निशा.। यनि. शोषः द. (तु. आन. ।)
 c) गपू. (पृ४८) 'तीः इत्यत्र यनि. शोषः द. । d) 'आद्यन्त' इति अश्या. । e) 'आनन्दं, नन्द' इति आन. । f) 'स्वम्
 इति बे. । g) 'तैश्च १, २७, ४ । h) 'तवा' इति अश्या. । i) गपू. (पृ४९) सस्य. 'अनिकेत->-सः' इत्यत्र यनि.
 शोषः द. । j) गपू. (पृ४९) सस्य. कौल १० इत्यत्र यनि. स्पलसंकेतः द. । k) 'नम् इति अश्या. । l) 'तैश्च ४, २३, १ ।
 m) 'तैश्च १०, ७, १ । n) 'विरामः' इति आन., सात. । o) 'निर्' इति अश्या. । p) 'दंताः इति सात. । q) 'भनी-
 कम्' इति निशा. । r) 'मा ३२, ४ ।

अनु/ज्ञा, > जा, अनुजानीहि जाद
४, ३^०.

अनु-ज्ञा- ओत^०, शुध^०, तद्^०,
लब्ध^०

अनु-ज्ञात- तद्^०
अनु-ज्ञातृ- ओत^०

अनु(न्-उ)त्तम- -मम् प्रवि १^०.

*अनुत्तम-विभ्रान्ति- प्राप्त^०

*अनु(न्-उ)दय- रवासना^०

अनु(न्-उ)दात्त- आख्यात^०, उदात्त^०

*अनु-दास- दासदास^०

*अनु(न्-उ)दित- १उदित^०

अनु/दृशु > *अनु-दर्शन- जन्म-
व्याधि... दोष^०

*अनु(न्-उ)द्भव- उद्भव^०

अनु/नी, अनुनीयते मु २, २, ३^०.

*अनु/पत्(पती) > अनु-पतन-
उपादेय^०

*अनु-पात- २चैल^०

*अनु-पातिन्- अन्^०, शब्दज्ञान^०,
शान्तोदि... धर्म^०, १शुद्धस्त्व^०,

अनु(न्-उ)पपत्ति- अक्रिन्^०, अधि-
ष्टान^०, तद्^०, भेद^०, रचना^०, विचि-
त्रभोग^०, संवन्ध^०

*अनु(न्-उ)परोच- प्रतिज्ञा...न्त^०

अनु(न्-उ)पलम्बि- उपलम्बि^०, तद्^०,
प्रलेक^०

अनु(न्-उ)पलम्बन- स्फुरण^०

अनु/पशु > *अनु-पश्य- प्रत्यय^०

*अनु-पुङ्गु- उङ्ग^०

अनु(न्-उ)पत्य ६ १८ : १७^०.

*अनु-प्र/दा(दाने) > अनुप्र-दान^०-
स्थान^०

अनु-फल- विरह्यतज्ञा...ना^०

अनु/वन्धु > अनु-वन्धु- १तनु^०

*अनु-वन्धिन्- कर्मन्^०

अनु/वृष् > *अनु-बोध- आमसल^०

अनु/भञ्ज, अनुभञ्जति गो २^०.

*अनु/भिद् > अनु-भेद- हरय-
शब्द^०

अनु/भू > अनु-भव- अपरोक्ष^०,

आत्मन्^०, आनन्द^०, इत्यादि...र्थ^०,

तद्भवन्^०, तल्लीला^०, २दर्शन^०,

पापपुराय...क^०, प्रपञ्च^०, ब्रह्म-
नन्द^०, १मनोन्मनी^०, यथाप्राप्त^०,

२योग^०, २ह्यार^०, ६स^०, संवन्ध...
मार्ग^०, सर्व^०, साक्षात्कार^०, सुखा-
गतवस्तु^०, सुखादि^०, स्व^०, स्वरूप-
बोध^०, स्वामानन्द^०, १स्वानन्द^०

*अनुभव-रूप- १नित्य^०

*अनुभव-विशेष- ब्रह्मसाक्षात्कार^०

अनुभवा(व-श्वा)स्मन्- स्मनि वृत्
२, १^०.

अनु-भाव- तद्^०, महत्^०, शिष्टानु...
सेवा^०, संसिद्धप्रकट^०, सुखकलिक-
ला^०, स्व^०, स्वावेशप्रकट^०

*अनु-भावक- १ब्रह्मानन्द^०

*१अनु-भावन- १ओकार...त्व^०,
शुद्धस्त्व^०

*२अनु-भाव(न)ना- ध्यान^०

*अनु-भु- सर्व^०

*अनु-भू- सर्व^०

अनु-भूत- अन्^०

*अनु-भूति- स्व^०

अनु/मन् > अनु-मति- सर्वाल^०

*अनु/मन्त्रि (<मन्त्र-), अनुमन्त्र-
पते की २, १५^०.

*अनु/मा(माने) > अनु-मान-
कारण^०, पतन^०, प्रत्यय^०, प्राण-
याम...ग^०, शब्द^०, भ्रुत^०

*अनु-मिति- अन्यया^०

अनु/मुद् > मोदि > *अनु-मोदित-
हृत^०

अनु/रञ्जु > अनु-रफ, पा- उमा^०,
नित्यलीला^०, रासवीदा^०

अनु-रक्ति- सत्यमार्ग^०

*अनु-रञ्ज(न)ना- १राग^०

अनु-रूप- तद्^०, १भाव^०, वेदवचन^०,

भ्रदा^०, सत्त्व^०, स्वकुल^०

अनु/लिप् > अनु-लिस- रङ्गान्ध^०

*अनु-लेपन- गन्ध^०, दिव्यगन्ध^०,

मात्य^०

अनु-लोम- प्रतिलोम^०

अनुलोम-विलोम- अष्टोत्तरशत^०

अनु/वच् > *अनु-वचन- २वेद^०

अनु-वाक- प्रातर्^०, २हृत्^०

अनु-वा(क्य) > कया^०- पुरस्^०

अनु(न्-उ)क- अन्^०

अनु(न्-उ)चान- अन्^०

अनु(न्-उ)च्य अन्^०

अनु/विद्(लाभे) > अनु-विद्य अन्^०

अनु/चि (<व्य)घ्, अनुवेधति अर्ध
२९^०.

*अनु-विद्- हरय^०

अनु/वृत् > *अनु-वर्तन- देह^०,

सोक^०, शास्त्र^०

*अनु-वर्तिन्- ४युग^०

अनु-वृत्ति- चिरकाल^०, प्रधान^०, वा-
धित^०, शुद्धा...पद^०, सर्वाचार^०

अनु/शास् > अनु-शासन- उरु^०,

निर्वाण^०, १भद्रन्^०, यया^०, २योग^०,
३वेद^०

अनु-शिष्ट- कुराल^०, १शिष्ट^०

*अनु-शिष्ट्व अन्^०

अनु/शी > अनु-शय- दुःख^०, सुख^०

अनु/शुच् (शोके)

अनु/शु > अनु-श्व- > शानुश्व-
शिक- हृत्^०

अनु/पु (<सु)भ > अनु-पुम्-
-पुम् वपू १, ४^०; १; २, ३^०; ३, १;
-पुम् वपू १, ४^०; -पुम् वपू १,
१, ४^०; २, ३^०. [०म्-
गायत्री^०, वृषिह^०]

a) विशा इति षय्या. । b) शान. षया. । c) अनुली इति षय्या. संदि. । d) वपू. (पू ३) सरय. षयि. षोषः ३. । e) ०म् इति भान. । f) ०म् इति निमा. । g) 'ममशयि' इति षय्या. । h) तैषा १, २५, ४ ।

भानुपुम्-भम् वप् १,४;५;६; २,१;३,२.[°भ- आदिप्रकृत°, वृसिंहमन्त्रराज°, वृसिंहहयप्रीप°, १ध्रुत°]

*भानुन्दुभ-मन्त्र- रामकृष्ण°

अनु/प्रा(<स्या) > अनु-धान-

भन्°, कर्मन्°, तद्°, प्रणव°, मन्त्र°, योगाज्ञ°, वेदोक...प°, १ध्रुति°, स्वाध्रम...कर्मन्°
*अनुधान-विधि- -धिम् वउ ६,२.

अनु-ध्रि- सु°

अनु-न्धेय- अवरयम्°

अनु-सं/घा > अनुसं-धान- अका-

र°°, अर्थ°, आत्मन्°, ज्ञान°°, सेत्त्वमस्यादि...प°, वेतामि°, वेताम्था...स°, ध्यान°, नाद°, निरन्तर°, निरन्त्रैगुणयस्वरूप°, परमतत्त्व...व°, प्रणव°, ब्रह्म-प्रणव°, लक्ष्मणव°, भवार्था°, संह्रव°°, संभावितत्त्व°, १स्व-रूप°, १स्वस्वरूप°

*अनु-सं/पू > अनुसं-पर- राय पा १०,१°.

*अनु-सं/मन् > अनुसं-मत- संहारतिरोधान°

अनु/सिक् > अनु-स्यूत- सर्व°

अनु/स्र > अनु-सार- आध्रमक्रम°, एकैकत्व°, कर्मन्°, तत्त्वकर्मन्°, बुन्दाव...मार्ग°, विस्र°, स्वेच्छा°

*अनु-सारिन्- अन्°, तत्संक्लप°, पुण्य...मैन्°, रविम्°

अनु/स्मृ > *अनु-स्मरण- पदव्यो-मन्°, मद्°, श्रीमन्नारायणाष्टाक्षर°

अनु-स्मरत्- अन्°
अनु-स्मृति- कर्मन्°, तच्छेषगति°
अनु-स्मृत्य क्ं ८^b.

अनु(वृ-व)प/चर > अनुप-चार- -रः मा २८°.

*अनूपम- -मम् नाद १८^d.

अनु(न्-श्र)जु- -जवे शा ३३^g°.

अनु(न्-श्र)त- १श्रत°, १स्त्व°

अने(न्-ए)क- -कैः(१कै) मा ५. [°क- साय...स°, दिव्य°, तद्धमी...कान्ति°, विविध°°]

*अनेक-देह- अतीतानागत°

*अनेक-पुण्य-लोक- पार्थिवय-स्थित°

*अनेक-प्राकार-विशेष- विदा-मन्दमय°

*अनेक-प्रासाद- अमोघ...य°

*अनेक-भोग- दुर्घफेन°

*अनेक-लोक- कुसिस्थ°

अनेक-विहार-देह-धारिन्-
अनेक-शरणा- -व्यांसु सार २८^द: २३^h°.

अनेक-शर(>) > अनेकश-
कोटि-ब्रह्माण्डक- -कानि सार २८^०: २३^l°.

अनेका(क-श्र)प्य-
अनेकान् / नश् (अदशैने) द.

*अनेकस्- -हःसु वउ ३,१०°.

*अनै(न्-ए)श्वर्य- धर्म°°

अन्त- -न्तम् गौड ५६^l; -न्ते १कौल ४:१; -न्तेन वृजाष्ट, ४^m. [°न्त- अनुल°, १अणु°, अति°, अन्°, अपर°, अपात्र°, अम्बर°, अक्ष°, आ°, आगम°, प्रञ्.]

+अन्त(क)- १नमस्°

+अन्त-प्रितय- शमित°

अन्त-व(व्)ती- -ती ससा १, ३९ⁿ. [°वल्- अन्°]

*अन्ता(न्त-श्र)ध- चतुर्थ°, तृतीय°, द्वितीय°, प्रथम°

√अन्ति > अन्तक °- १अहुर°, २त्रिपुर°, दशास्य°, २नरक°, ५पद्म°, २पुर°, १यम°, वित्र°
अन्ते-वासिन्- अन्°.

*अन्ते(न्त-ए)कान्त-संविधि- -रथा अक्ष ५,४४.

अन्व- -न्वम् जाद ४, ४५; वपू २,१. [°न्व- आचार्य°, चतुर्थ°, तद्°, तृतीय°, द्वितीय°, प्रथम°]

*अन्व-चिन्दु- तद्°

*अन्त्यान्त्य-श्राध्रमन्-स्थ- -स्थः कै १,५°.

अन्त(न्-त्)र(>) > र्त्- धे २, १६^g; मन्त्रि २; १कौल ६: २; २कौल ७; वपू २, १. [°न्त-

अन्त- -शि°, अनवकाश°, अ-मिततेजोराशि°, -अमितपरि...

शि°, अशेषभूत°, अस्थि°, काय°, १चक्र°, चक्रतीर्थ°, चतुष्-पाद्°, जठर°, जागरित°, ज्यो-तिसु°, तद्°, तालु°, त्रिकोण...

वृत्त°, त्रैलोक्य°, दर्पण°, द्वादश-नाडि°, ध्यान°, नाद°, प्रकार°, प्र-खणव°, प्रखण्डत°, नवान्त°, वृद्धि...

वीजादि°, बुद्धि°, मन्मनाडीसुख°, मन्मनाद°, भूपुर°, सता°, नाचा...

राशि°, शरीर°, शीर्ष°, तत्त्व°, सर्व°, सर्वभूत°, सुरश्रीन...जन्°,

a) धैतु. पाटी. अनु सं° इति । b) 'समुद्दिश्य' इति अस्या । c) 'उपचारः' इति अस्या । d) 'नीपम्यम् इति आन. । e) वाच २,८ । f) पा.१ यनि. शोधः द. । g) गपू. (५५९) यनि. शोधः द. । h) 'व्याप्यः सु° इति पा. ? यनि. शोधः द. (एतदनु गपू. ५५९ 'अनेक-शरणा- > -शरणाः' इत्यत्र शोधः द.) । i) गपू. (५५९) सर्व. 'अनेक-शर(>) इत्यत्र यनि. शोधः द. । j) गपू. (५५९) 'अने(न्-ए)कान्य- ' इत्यत्र यनि. शोधः द. । k) ध्रु. १-१समय- । l) 'अन्वन्तम्' इति आन., अस्या. संटि. । m) 'अज्ञेन' इति अस्या । n) 'अन्तर्वेत्नी' इति आन. । o) गपू. (५९०) यनि. संख्यानिर्देशः द. । p) अन्वाध्र° इति आन., अस्या. । q) मा ३२,४ । r) 'अतः' इति अस्या ।

सुपुत्रा°, सूर्यमण्डल°, स्व°, हृदय°]
 अन्त-काण-आकाशकार्य°, आशी-
 तल°, गुरु...शुद्ध°, तत्तत्कर्म...
 वासित°, प्राण°, शुद्ध°, ६स°
 अन्तःकरण-चतुष्टय-ज्ञाने...य°
 †अन्तःकरण-मालिन्य-विशेष-
 अत्यन्त°
 †अन्तःकरण-वृत्ति-सर्वकामादि°
 †अन्तःपुर-परिच्छेद- ६स°
 अन्तःप्र(ज्ञा)ज्ञ-ज्ञः वज १,६;
 १२;५,३८.
 अन्तःप्रणव-नादा(द-आ)ख्य-
 ख्यः पाशु २,३°.
 अन्तर-भङ्ग- १आदि°
 अन्तर-अमृता(त-अ)हुरक- भूमि-
 प्रोदितमात्र°
 अन्तर-आत्मन्-रमा मना २,
 ६६^{१०}. [°न्- जीव°, परम°,
 प्रव्यथित°, २वेद°, १सख्य°,
 सर्व°, सर्वभूत°]
 अन्तर-आल- शुद्धमेदु°, तद्द°,
 तद्दीज°, शिवादिशक्ति°, ६स°
 अन्तरालिक- तद्द°
 आन्तरालिक- १ओकार°
 अन्तरि[र/इ(गतौ)]>अन्तर-
 आय- तद्द°निर°
 अन्तर-इन्द्रिय- स्व°
 अन्तर/गम्>अन्तर-ग- गः
 मैत्रि ६,३५°.
 अन्तर-गत-तम् योशि ६,
 २१°; पत्र ३,५°. [°त- अख-
 णानन्दतेजोराशि°, अखण्डा-
 मितवै...शि°

अन्तर्गत-प्रमा-गृह- -हम्
 पाशु २,३°.
 †अन्तर-गृह- -हम् भ २,१८°;
 -हे भ २,३०°.
 †अन्तर-द्वारा(श-अ)र- सर्वज्ञादि°
 अन्तर/धा>अन्तर-धान-
 -नेषु गोउ ६,३°.
 †अन्तर-धि- स्व°
 अन्तर-हित- -तः वज ४,
 ४७; -ते वज ३, ३६. [°त-
 अन्°]
 †अन्तर-धारण- -णे स ३,७८:५.
 अन्तर-बहिःस(>);श् प्राकार°,
 समस्तमन्त्राण्ड°
 अन्तर्बहिः-प्रपञ्च- अण्डान्तर°
 †अन्तर्वैहिव-चित(>)ता-
 -ताम् शि ७,१२७.
 †अन्तर-मातृक- शुद्धि°°
 अन्तर/यम्(यमने)>अन्तर-या-
 मिन्-मी वज १,११.[°मिन्-
 तद्भोगविर्भाव°,सर्व°, सर्वभूत°]
 अन्तर-याग- शुद्धि°°
 अन्तर-लक्ष्य- भगव...त्र°
 †अन्तः-निखोपवीत- अलक्षित°
 †अन्तस्-तारा- अक्षि°
 अन्तस्-तृष्णा- -ष्णा मैत्रि ३,५°.
 अन्तस्-त्रिकोणा(स-अ)ग्र-
 (य>)गा- नाः भा २४°.
 अन्त(र्गत)र- -रम् अशि १, ३^{११};
 [°र- अण्ड°, अन्°, अनेकरा-
 रक्षित°, अनेकलता°, अन्तर°,
 अभि°, अर्थ°, अर्थ°, अष्टपत्र°,
 आययोनि°, आवर्ते°, आसन°,
 इन्द्रिय°, उपदेश°, उपाय°,

एकैकरोमकूप°, करण°, कलशा°,
 ३कल्प°, कामकैलिरस°, २काल°,
 कुञ्ज°, कोणाप्र°, क्रीडा°, गगन°,
 गुल्फ°, गृह°, प्राम°, चित्त°,
 जन्मन्°, २जाति°, -तरव°,
 तद्द°, त्रैलोक्यव°, दशन°, दिश°,
 १देव°, देश°, देशादिस°, देह°,
 द्रष्टृदृश्यदशा°, धर्म°, निर°,
 निरति°राशि°, पद°, परिपूर्ण°,
 पात्र°, प्र°, प्रकरण°, प्रकार°,
 प्रज्ञा°, प्रत्यय°, प्रधानपुरण°,
 प्रमाण°, १बीज°, ब्रह्मतांर°, ब्रह्म-
 नाडि°, ब्रह्मविल°, २भव°, भुञ्ज°,
 मणिलता°, मत°, ४मनु°, मन्त्र°,
 लता°, लोक°, वन°, १वर°,
 ३वर्ष°, वस्तु°, २वासित°, विद्या°
 विषय°, व्योमन्°, शब्द°, साखा°
 शाला°, शोक°, सरव°, सर्व°, सर्व-
 जन°, सर्वजीव°, सर्वनाद°, सर्व-
 भाव°, सर्वभूत°, सहकारिन्°, सुष्ठं-
 ज्ञावदन°, स्थान°, स्वमध्य-
 मानामिका°, १हृद्°]
 अन्तर-> †आन्तर-दष्टि-
 मनोयुक्त°
 †अन्तर-ज्योस्वना- स्यूतपुष्प...त°
 †अन्तर-सम- अ५°
 अन्तर-स्थित- अखण्ड...राशि°
 अन्तरा(र-अ)गिन- -गिनः गर्भ २^६.
 अन्तरा(र-अ)न्तर- बुद्धिसार°
 †अन्तरीय- वाद्य°
 अन्तरा तद्द°
 अन्तरि-क्ष- -क्षम् मना १,२९^{१०}; वपु
 १, ६; -क्षाय मना २, ३-५^{१०};
 ६७^{१०}; -क्षे मना १, १४^{१०}; नी २,
 १९^{१०}. [°क्ष- तद्धिहीन°]

a) अतः प्र° इति अच्चा. संदि.। b) तैश्चाथा १०,६६ (गपू. ५६२२) यनि. शोधः द.। c) र्गतः इति सात.।
 d) गपू. (५६२) पत्र ६,२१ इत्यत्र यनि. शोधः द.। e) °मास्वदम् इति अच्चा. संदि.। f) गपू. (५६०) सख्य.
 'अन्तर(>ः)' इत्यत्र यनि. शोधः द.। g) °ने इति घान.। h) अथ च् इति सात.। i) °णगाः इति तान्त्रि.। j) सकृत्
 व्यन्त° इति घान.। k) अन्मन्त° इति अच्चा.। l) गपू. (५६४) मना १,२,१४^{१०}; इत्यत्र मना १,२; १४^{१०}; इति
 शोधः द.। m) तैश्चा १०,१,२। n) तैश्चा १०,२-४,१। o) तैश्चाथा १०,६७। p) तैश्चा १०,१,१४। q) मा १३,६।

अन्तरिक्ष-सद्-सत् पर २, १५°.
 √अन्ति अन्त-इ.
 अन्ति->अन्ति-क- निधनपति°,
 भस्मन्°, मरण°, संहरण°,
 स्वातन्त्र्य°
 अन्त्य- अन्त-इ
 ?अन्त्यधर्मैर्दा° सूता २, १२.
 *अन्त्र- कपाल°
 *?अन्/घा>अन्ध-अधेन घृ
 ४, ४, ११५°। [°न्ध- अन्°,
 १मानि°, तिमिर°, दीन°, पशु°,
 मूक°, १(ग)]
 आन्ध- १तुप्°
 अन्ध-कार- मण्डित्योस्त्नासकृत°,
 महत्°, मोह°
 अन्ध-तमस- अज्ञान°
 अन्धो(न्ध-उ)द-पान-रथ-स्थः
 मे १, ७°.
 १-२अन्नाद्य- /अद् इ.
 अन्ध- न्यः सुं ३, १, १५°; मत्
 ९, ४५°; भव २, २५°; न्यस्
 अप्या२०°; न्यस् कौ१, १°; तेद.
 ५१°; न्यानि गोउ २३°। [°न्ध-
 अन्°, अन्धस्/न्धो°, तद्°,
 त्वद्°, परार्थ°]
 *अन्ध-नामिन्- पत्°
 अन्ध-तर- उक्त°
 अन्ध-तस(>:) कौ ४, ७°
 अन्ध-ता->अन्धता-क्याति-
 सत्त्वपुरुष°

अन्ध-प्र स्व°
 अन्ध-व- अन्°, उभय°, मम°,
 परिणाम°
 अन्धदीय- न्यः २ प ३५:६१५°.
 *अन्ध-श्रीक- अन्°
 *अन्ध-दास्त्रा(स्त्र-अ)स्यात्-
 स्वप्पानु...क°
 *अन्धा(न्ध-अ)धिपति- अन्°
 अन्धा(न्ध-अ)शेषित-संसार-धर्म-
 मान् १भव १५।°
 *अन्धो(न्ध-उ)द्वेग-यारिन्- अन्°
 अन्धो(न्ध-अ)न्य-अ-अन्धो-
 पायु-परिपीडित-सुक-
 द्वैविध्य- न्यात् गर्भे ३२°.
 अन्ध्याय- न्यः १कौल ५: १°;
 २कौल ६.
 अन्ध(नु-अ)य/सो, अन्धवस्वन्ति
 कौ ४, २०५°.
 *अन्धा(नु-या)/गम्>अन्धा-गत-
 अन्°
 अन्धा(नु-या)/चृत्, >घति, अन्धा-
 घन्ते कौ २, ११°.
 अन्धावर्तयति कौ २, ८१°.
 अन्धि(नु/इ(गती)), अन्धेति अरु
 २७५°.
 अन्ध(नु-अ)य- गुण°, प्रहण°,
 १चित°, निरोधरूपधित°,
 वाक्य°, पप्°, स्थूल°
 अन्धि(नु-इ)त, ता- अणिमादिपु-
 षा°, अनन्तावयव°, अनेकवदन°,

अयुतावयव°, इच्छाक्रिया°,
 एतासंख्या°, वापिलाज्य°, काम-
 यमैर्न°, कामरागबल°, गुण°,
 सगद्देवतानुमह°, तामस°,
 स्वरा°, दम्भमानमद्°, दर्पण°,
 द्वाविशत्केसर°, धनमानमद्°,
 प्रभा°, फलमूलोदक°, भय-
 घृक्षजल°, महारत्न°, मुदा°,
 २वर्णक°, विन्यवकलन°,
 विनय°, शहूच, "दा", शता-
 वयव°, घम°, शांभवीमुद्रा°,
 शिवादिचिह्न°, पीडनामत्रा°,
 संख्या°, सर्वभोग°, सर्वोपकरण°,
 सहस्रावयव°, सुषेयू°, सुगन्ध-
 मणिमयभोग°, हर्षशोक°
 अन्धि(नु/इ)पू(गती)>अन्धे(नु-ए)-
 पण- संसारातिनिवृत्ति°
 अन्धे(नु-ए)यिन्- महालोकापद°
 √अप्
 अप्-> *अध्-इ-आप्-
 *अध्-इ-अन्धयः नाउ १,
 १६५°; १कौल ४।°.
 अप्-अपः कौ२, ७५°; अपाम् सु
 २९४:६५°; अप् सु २, २१५°.
 आप्- आपःअधि१, ८°। [°प्-
 पृथिवी°, पृथ्वी°, महत्°,
 रत्न°, शुभा...उम्भ°]
 अद्-अद्- अद्त्°, गदा°,
 गदा°, पृथिवी°, २प्रवाल°,
 हेमत्°

a) ऋ ४, ४०, ५। b) पा. वा. च१। c) व्यु.इ =पुरीतद्-। d) मा ४०, ३। e) °न्ध्-इ इति अख्या.।
 f) ऋ १, १६४, २०°। g) मा ८, २६। h) ऋ १, १६४, २०° (गपू. पृ६५ भव २, १° इत्यत्र यनि. शोधः द्र.)।
 i) 'अन्धय' इति निसा.। j) °न्धतमः इति शांशा ३, १; वे.। k) 'अन्धय' इति अख्या.। l) 'आधानि' इति श्रान.।
 m) द्र. गपू. पृ३३५। n) पा. ? 'नेदीयय->न्यः' इति शोधः द्र. (द्र. गपू. पृ७१७e)। o) 'मौ वै' इति
 निमा.इ यनि. शोधः द्र. [द्र. अख्या. (गपू. पृ६८ यनि. शोधः द्र.)]। p) °कहैप्यात् इति श्रान., 'तानां सुकृद्द्वेषे
 इति अख्या.। q) गपू. (पृ६८) सत्य. कौल १७ इत्यत्र यनि. शोधः द्र.। r) °न्धवदय' इति अख्या., 'न्धे इति
 शाशा ६, २०। s) निसा., अख्या.इ 'अन्धावर्ते' इति शोधः द्र. (द्र. श्रान., शांशा ४, ९)। t) निसा. अख्या.इ
 'अन्धावर्ते' इति शोधः द्र. (द्र. श्रान., शांशा ४, ८)। u) तैआ १, २७, ४। v) तैआ ८, १, १। w) गपू. (पृ६९)
 कौल ३ इत्यत्र यनि. शोधः द्र.। x) 'उदकम्' इति शांशा ४, ५। y) ऋ ९, ९६, १९। z) मा २३, ८ (गपू. पृ६९ सत्य.
 यनि. शोधः द्र.)। a') 'आमः' इति श्रान.।

+अवज(क)- षोडशन्°

+अवज-कर्णिका- विप्र-

कीर्ण°

अवज-पत्र- अम् ध्या

३३°

अव्- द्वादशन्°, शत°

अव्-धि- अनन्तप...रस°

आनन्द°, १काम°, क्षीर°, महत्°,

महापाप°, १स्वानन्द°

अभ- छिन्न°, वि°, शरद्°,

शुभ्र°

अप/आपे ९ : ५.

अप/कृ(करणे)>+अप-करण-१मान°

अप/कम् >+अप-कर्म-त्रिधा २,

१०४°.

अप/गम् >+अप-ग-अन्°

अप/चि(चयने)>+अप-चय-उप-

चय°

अप/जि >+अप-जय-अन्°

+अप-पर्य-अन्°, आरूढपतित°,

दार°, पितृ°, २मातृ°

अप/नी >+अप-नय-स्वाध्यास°

अप/नुद् >+अप-नुत्ति-केशकेन°

+अप-नुद-ग्रम°

+अप-नोद-ध्रम°

+अप-प्रे(प्र/ईरु)>अपप्रे(प्र-ई)रक-

गोपीजन...ला°

+अप/भू>अप-भुव-अन्°

+अप/मन्>अप-मान-१मान°

अपर-रम् अना २७°; नाद २१°;

गोड ६४°; व १°; -राणि मेदि

४, ३६. [र-अन्°, दशन्°,

पर°, पर°, पूर्व°, शत°, सर्व°]

+अपर-ना(मन्)>झी- २वासना°

अपर-पक्ष-क्षे कौ १, २. [°क्ष-

पूर्वपक्ष°]

+१अपरा(र-अ)न्त-परिणाम°

अपरा(र-अ)ह-ह्ने १संन्या २, ७३°.

+आपराहिक-कम् भव १,

३८.

अ-पराजित>ता-ता अह २५५°.

२अ-परा(र-अ)न्त-गप. पृ७२ द.

अ-परिग्रह-अस्तेय°, अहिमा°,

ग्रहचर्य°, १शिष्ट°, १सत्य°

अ-परिच्छिन्न-अद्वितीय°, अमित°,

तद्विलक्षण°, परमकौतुक°

+अपरिच्छिन्ना(प्र-अ)न्त-ज्यो-

तिस-परमा...ण°

+अपरिच्छिन्ना(प्र-अ)न्त-पर-

ज्योतिस-परमा...ण°

अ-परिज्ञान-पूर्वापर°

अ-परोक्ष-धम् वरा २, ६९°.

+अपरोक्ष-व-स्वप्रकाश°

+अपरोक्ष-साक्षाकार-अप्रतिबद्ध°

अप/लपु>अप-लाप-तद्° धर्म°

+अप-लापक-ज्येष्ठा...त्व°

अप/वद् >अप-वाद-अध्या-

रोप°, निन्दा°, पर°

+अप/वृ(आच्छादने)>अप-वरक-

पञ्चापर°

अप/वृजु>अप-वर्ग-अखिल°,

१भोग°, सर्ग°, स्वर्ग°

अ-पश्यत्-इत्यन्तः वृत् ९, १७.

+अप/सद् >अप-सद-कुतर्क°

+अप-सव्य-२सव्य°

+अप/सृपु>अप-सर्पण-तेजस्°

अप/स्था>तिष्ठ, अपतिष्ठति २प्र

३६ : १२५°.

अप/स्मृ>अप-स्मार-भूत°, महत्°, ध्रमिक°

अप/हन् >+अप-घातक-तद्°

+अप-हृ, हा-अज्ञान°, दुरित°,

नाडीजल°, निशुम्भ°, सर्वरोग-

भय°, सर्वव्याधिविप°

अप-हति-रथे म २, २°.

अप/हा(लागे)>+अप-हानि-

१पाप°, सर्वपास°

अप/हृ >+अप-हरण-परधन°

+अप-हार-महिप्रमाण°

+अप-हारिन्, णी-द्रव्य°, तमस्°,

ताप°, सर्वदोष°

अप-हृत-नष्ट°

अप/ह्वु >+अप-ह्वव-सर्व°

+अपा(प-आ)/कृ(करणे)>अपा-

कृत-मणिज्योस्ना°

अपा(प/अ)न्(प्राणने)>आनि>

अपा(प-आ)न-नः गर्भ १°;

व्रवि ६६५. [°न-प्राण°,

बहु°, वडि°, वृषण°, व्यान°,

१समान°]

+अपा(प-अ)न्त्-अन्°

+अपा(प-अ)नयितव्य-अन्°

अ-पाप-काशि(रु.)नी-नी शां

३, १.

+अ-पाप-कृत्-कृत् इ ११ : २०°.

अ-पर-अनन्त°, निस्तरा°.

+अपा(प/अ)र्जु>अपा(प-अ)र्जन-

दुःख°

अपा(प-आ)/वृ(आच्छादने), अपा-

वृणु इ ५, १५, १५°.

अपा-वृत-अन्°

+अपा(प-आ)/थि>अपा-अय-सर्व°

a) अष्टपु इति आन. । b) पा. १ 'अय' इति शोधः द. । c) अतिक्र° इति निशा. (गप. पृ२२ सस्य. 'यनि. शोधः द.) । d) वृ. वैप १, २७६c । e) 'परम्' इति आन. । f) 'पर' इति निशा. ? यनि. शोधः द. (वृ. 'उपरम्' इति आन.) । g) 'परम्' इति निशा. । h) इतरा इति सात. । i) °क्षेण इति शाखा ३, २; ३. । j) °कम् इति अख्या. । k) तैशा १, २७, ४ । l) °क्षपाव इति अख्या. । m) 'तिष्ठति' इति गोमा १, १, २c । n) °हृत्ये इति निशा. । o) °नम् इति आन. । p) °पान° इति अख्या. । q) पाप° इति पा. ? यनि. शोधः द. । r) वा ४०, १, १५ ।

अपि मना १, १५१९; गोच ६७ : ४१.
 [°पि यदि°]
 +अपि-कृत्->अपिकृद्य- -क्षयन् वृ
 २, ५, १७९.
 अपि/घा/>अपि-घान- अन्त°,
 अयत्°,ओष्ट°
 अपि-हित- -तः नाप ४, १८९^१;
 -तम् वृ ५, १५, १९.
 ?अपिघत्सचिना^१ इति ५, ४२.
 +अपि/श्च,अप्यसरत् वृ ६, ५, ५९.
 अपी[पि/इ(गतौ)]>+अप्य(पि-अ)-
 य- प्रभव°, २भव°, स्व°
 अ-पुण्य- १पुण्य°,सुख°°
 अ-पुत्र- -प्राणाम् राष्ट्र ४, ६६^१.
 अ-पुनर्-भ(व>)धा^१ -वा सुधा
 ११.
 अ-पूर्ण- पूर्ण°
 १अ-पूर्व- गप्, वृ ७५ द.
 १२अ-पूर्व- गप्, वृ ५२०] द.
 अपे[प/इ(तौ)]>+अपा(प-अ)य-
 आगम°, आपोगण°, उत्पत्ति°,
 निर°,पूर्व°,मेष°
 +अपाविन्- अन्°
 अपे(प-ई)त्- चक्षुस्°, जीव°,
 प्रज्ञा°,रागादि°,१वाच्°,श्रोत्र°,
 सर्वावरणमल°
 अपे(प/ई)क्ष्,अपेक्षन्ते अठ ३१९^१;
 अपे(प-ई)क्ष्,क्षा- अन्°, अनु-
 मान°,अन्यतर°,ऐदिकासुम्पिक°
 कृतप्रयत्न°,वेधलमोक्ष°,तद्°,
 देशकालादि°,निर°,पुत्रादि°.

६स°, सर्व°,
 +अपे(प-ई)क्षक- निर°
 +अपे(प-ई)क्षित- अत्युग्र^१दि°
 +अपे(प-ई)क्षिन्- तदुपराग°,
 १मोच°
 अपे(प-ई)क्षय सर ३, २४. [°क्षय
 अन्°]
 अपो(प/ऊ)ह् (वितर्कें)> +अपो-
 (प-ऊ)ह- ऊह°
 अ-प्रकाशि(व>)नी-नी गोउद६३.
 +अ-प्रचार- १मनस्°
 +अ-प्रतिषेध- तद्°
 +अ-प्रतिष्ठान- तर्क°
 +अ-प्रतिसंख्या- प्रतिसंख्या°
 +अ-प्रतीति- तादृक्पदार्थ°, प्रतीति°
 अ-प्रवृ(द्ध>)द्धा-द्धाः मैत्रि २, ६^१.
 ९°अ-प्रमत्त- -तम् शा ३४; सु १,
 १, ५२.
 अ-प्रमाण- प्रमाण°
 अ-प्रमाद->+अप्रमाद-ता- १निः-
 संकल्प°°
 अ-प्राण- -णः मैत्रि २, ४°; त्रि
 ८१^१.
 अ-प्राप्ति- तद्°, प्रतिसंख्या...घ°;
 प्रियशिरस्त्वादि°
 अ-प्राप्य श १७९°.
 अ-प्रिय- प्रिय°
 +अ-प्रीति- प्रीति°
 १अप्-सर->अप्तरा- -रासु मना
 २, ४२९^१.
 १अप्-सरस्- गन्धर्व°, जयादि°.

नर°, पिशाच°, २यक्ष°°
 अ-फल- १फल°
 अ-यल- १यल°
 अ-बाध- बाध°
 अ-बाधिते- कालत्रय°, सर्वकाल°
 +अ-बोध- बोध°
 अ-ग्रहान्- १ग्रहन्°
 अ-भक्ष्य-भक्षण- समस्त^१तक°°
 +अभद्रिका- गप्, वृ १२८^१ द.
 अ-भय- चक°°,पद्मद्वय°, १भय°,
 १वर°, वरद°, १शङ्क°°
 अभयं-कर- सर्व°
 +अभय-दायक- वरद°
 अभय-वर-दं-कर(>)ता- -रा सो
 १, २.
 +अ-भय- भय°
 +अ-भान- भान°
 अ-भाव- अन्त°, अन्तराय°,अन्य°,
 अन्यतर°, अन्वोन्म°, अर्थ°;
 अहंभावादय°, २आज्य°,आद्य-
 न्त°,आश्रय°,इन्द्रिय°,इष्टप्राण°
 उन्तरोत्तर°,उदयास्तमय°,एक°,
 एकान्तात्यन्ततत्°, कार्य°, कार्य-
 कारणता°, गति°, गोपीचन्दन°,
 ग्राह°, घृत°, चलद्विधरोभय°,
 चित्त°, १जन°, जन्मन्°, जन्मान-
 न्तर°, जीवन्नद्यगुण°, तत्स्वस्वत-
 ज्ञान°,तद्°,तक्षोम°, तद्विपर्यय°,
 २तत्°,तत्त्व°,तृष°,तृष्टमन्दन°,
 दम्बायुचलन°,दृश्य°,देह°,द्वय-
 त्व°,द्वय°, द्वितीयकारण°, द्वैत°.

a) 'वि' (द्र. तैश्चा १०, १, १४) इति पा. १ यनि. शोषः द्र. [=यव पृथिव्यां रजसं(यव) आ रोदसी (व्यातते) अन्तरिक्षेऽपि (रजस्वम्) इति वा. (वैद. सा. [तैश्चा.] 'आ' इति 'वि' इति च स्वाश्र. सती यक. अन्तरिक्षे, रोदसी इत्येताभ्यामग्निने इति, नादी. रजः स्वं [=द्रे पदे] आ [श्रितम्=इति कृत्वा क्रिउ.] स्यु [आश्रितम् = इति कृत्वा पुनर्थोगः] इति [तु. सत्य. टिटि. आ. 'रजस्व->स्वम्, इदम्->इम->इमाः]] । b) 'जनि' इति पा. १ यनि. शोषः द्र. । c) अ १, १७७, २२ [गप्, वृ ११२ 'कक्ष्य->क्ष्यम्' इत्यत्र यनि. शोषः द्र. (तु. वैप १, २९९८)] । d) तैश्चा ७, ४, १ । e) मा ४०, १७ । f) पा. १ 'आपिचन् सविता' इति शोषः द्र. । g) तैश्चा १, ३०, १ । h) 'पुत्रि' इति आन. । i) =नाडीविशेष- । j) तैश्चा १, २७, ५ । k) उपे° इति अश्या. । l) 'प्रकाशने' इति आन. । m) आत्म- प्र° इति सात. । n) बाध २, ९ । o) 'प्राण.' इति सात. । p) 'अग्रणः' इति अश्या. । q) तैश्चा ८, ४, १ । r) 'रक्षु' इति चि १०, १५१, ३ ।

नास्तित्वसाधन^०, निमित्त^०, नियम^०, नियम^{००}, पाद^०, पूर्वहेतु^०, प्रत्यय^०, प्रपञ्चत्वादि^०, प्रमाण^०, प्रयोजन^०, १वन्ध^०, बाधक^०, बुद्धि^०, भक्ति "वासना", १भाव^०, भेद^०, मुक्तिहेतुत्व^०, मूर्छानिद्रा^० स^०, १मूल^०, योगयत्न^०, लिप्त^०, वस्तु^०, विचार^०, विवाद^०, विशेष-विज्ञान^०, वेद्य^०, वैराग्य^०, शब्दादि^०, संयोग^०, सद्भाव^०, संदर्शन^०, समाधि^०, संवन्ध^०, सर्व^०, १सर्व-कर्मन्^०, सर्वसंभव^०, साधक^०, सुख-लाभ^०, स्वस्वविषयसंप्रयोग^०, २हस्त^०, १हेतु^०

अभाव-मात्र- भावना^०

अ-भावन- तद्^०

अभि>अभि-तस(>:)>+अभितस-सर- -तौ नो ३, १.

+अभि/क्री>अभि-क्रयण- राजन्^०

अभि/गच्छ, गम्, अभिगच्छन्ति वृ ४, ४, ११५^०.

+अभि-नामन- तीर्थयात्रा^०, दुहितु-स्तुपा^०

+अभि-गम्यमान- अन्^०

+अभि-नामिन्- श्वशुरकाल^०, गुरु-दार^०

अभि/घ्रा>जिम्, अभिजिघ्रामि कौ २, ११^०.

अभि/चर>अभि-चार^०- परकृत^०

+अभि/जुप्>अभि-जुषाण-

आत्मन्^०

अभि/ज्ञा>अभि-ज्ञ, ज्ञा- अज्ञ-योग्यभेद^०, आसनभेद^०, केका^०, २जल^०, २ताल^०, मूल्यकला^०, पक्षि^०...न्प^०, १भाव^०, भाषा^०, १भोग^०, रतिकला^०, रसकला^०,

रसदातृभोग^०, रसदान^०, शृङ्गार-वधायोग्यकाल^०

अभि/घ्रा, अभिधीयते गोप् १^०.

अभि-घ, घा- असंसर्ग^०, अहंकार^०,

आरमलाभोदय^०, इत्यादिकृत^०,

कलित^०, कामकला^०, १कुण्डल^०,

जालंधर^०, जीव^०, तत्पद^०, १तुर्व^०

तुर्वपद^०, तुर्यातीतपद^०, ३त्रिपुर^०

त्वंपद^०, ३हज्जावाल^०, १ब्रह्मन्^०,

विश्वेश्वर^०, विश्वोदर^०; शाश्वता-

शाश्वत^०, हस्तिजिह्वा^०

अभि-धान- २चरण^०, चाहतर^०,

चित्तनाश^०, १छन्दस्^०, बुद्धी-

न्द्रिय^०, शत^०, धृतोपनिषत्कथति^०,

सर्व^०, मुखविशिष्ट^०

+अभि-धेय- प्रकृति^०, १ब्रह्मन्^०

अभि-हित- -तम् मैत्रि ६, ३५^०.

अभि/घ्राष्(गती), अभिधावत कौ १, ३^०.

अभि/ध्वै>ध्या>अभि-ध्यान-

तद्^०, देवता^०, पर^०, वेदादि^०...

धर्म^०

+अभि-ध्यायिन्- अन्^०

अभि-नय- निरन्तर^०

अभि-नि/घा>+अभिनि-हित-अन्^०

अभि-नि/पद्, अभिनिपद्यते कौ २, १५^०.

अभि-नि/विश>अभिनि-वेश-

अभूत्^०, वितय^०

अभि-नि(स्)>प्/पद्>+अभि-

निप्-पत्ति- परतन्त्र^०

अ-भिन्न- -धम् पत्र २^०. [अ-

अद्वितीय^०, कारण^०, द्वैव^०,

तद्^०, त्वद्^०, प्रत्यच्^०, मित्र^०,

१मनस्^०, सूद्^०, १सम्^०]

अभि-प्र/वृत्, अभिप्रवर्तयताम् कौ २, १३^०.

अभि-प्रे(प्र/इ(गती))>अभिमा-

(प्र-श्रा)य- १पुत्र^०, ६स^०

+अभि-प्रे(प्र/ईर)>अभिप्रे(प्र-ई)-रित- कर्मन्^०

अभि/भाप्>+अभि-भायण- हि-तयार्थ^०

अभि/भू>अभि-भव- अधर्म^०,

अन्^०

अभिमवा(व-श्रा)श्रय-जनन-

मिधुन-वृत्ति- अशोन्व^०

अभि-भूत- अन्^०, तमस्^०

अभि/मन्>अभि-मत- परिवार^०,

मद्^०, यथा^०, स्व^०, स्वभाव^०

अभि-मान- अव्यवसाय^{००}, अध्या-

त्म^०, अहंकार^०, क्रोध^{००}, क्षेत्र^०,

यद्^०, जीव^०, ज्ञान^{००}, तद्^०, तमो-

मय^०, देह^०, धृत^०, निर^०, बाल्यायन-

स्था^०, मद^०, महत्तत्त्व^०, शरीर^०,

संकल्प^{००}, ६स^०, स्वशरीर^०.

अभिमान-मय- अन्^०

अभिमान-शून्य- -न्यम् मैत्रे १,

४, १४^०.

अभि-मानिन्- सुपुति^०, स्थूलदेह^०

अभि/मन्त्रि(<मन्त्र-)>अभि-

मन्त्रण- भूमि^०

अभि-मन्त्रित- भातुष्टुभ^०

अभि-मुख- आदित्य^०, उत्तर^०,

२दक्षिण^०, ६दक्षिणा^०, नीड^०,

पश्चिम^०, पूर्व^०, प्रपद्य^०, विमुक्ति^०,

१सूरी^०

अभिमुख-ग(त>)ता- -ताम् कलि

४०१:३^०.

अभिमुख-तस(>) कौ २,

१५५^०.

a) अविग^० इति मा ४०, ३; का ४०, १, ३ (गप्, वृ०८२ सस्य, मा ४०, ३; इत्यत्र यनि. शोधा. द्र.) ।

b) अवमि^० इति भान. । c) भान. अया. । d) अदिहि^० इति सात. । e) °वति इति वे. । f) °निष्पद्येत् इति अन्वा. । g) गप्. (वृ०८) सस्य. यनि. शोधा. द्र. । h) °संयाताम् इति अन्वा. । i) °न्यः इति अन्वा. । j) °मुख्यता इति तात्त्रि. (गप्. वृ०८१ सस्य. यनि. शोधा. द्र.) । k) °खाय इति शांशा ४, १५ ।

अभि/मृन्, अभिमृत्तति कौ २,
११५.

*अभि-आर्शन- २कर°

अभि-मृत्तमान- -नः मेरि १, २७.

+अभि/मृत्ले>मृत्ला>अभि-मृत्लात-
अन्°

अभि/युज्>अभि-युक्त- १निरय°,
महिप्रदा°, २योग°

अभि/रक्ष्, अभिरक्षति अति६, ८°.
*अभि-रक्षित- २भीम°, भीष्म°

अभि/रम्>अभि-राम- बर्हाषीठ°,
योगपट्ट°, १११म°

*अभि-रूप- जटा°

अभि/लप्>अभि-स्नाप- तदभा-
व°, तद्वन°, सब°

अभि/लप्>अभि-स्नपित- १म-
नम्°

अभि-स्नाप- अन्°, १मनस्°, ६स°

अभि-स्नापिन्- दातपुत्र°

अभि/घट्>वादि>*अभि-
वादन- नमस्कार°

१अभ्यु(भि-उ)दित- अन्°

अभि/घट्>अभि-वन्दन- २सं-
ध्या°

अभि/घाञ्ज्>*अभि-वान्छन-
अन्°

*अभि-वान्छित- यथा°

अभि-वि/रुज्, अभिविरुजते कौ
३, ४५५°.

अभि/वृष्>*अभि-वर्षन-१अह्न°
*अभि-वर्षित- पूर्ण°

अभि/वृष्>*अभि-वर्षण-अमृत°
अभि-व्य(वि/अ)ञ्ज्>अभि-व्य-

(वि-अ)क्त- अन्°
अभि-व्य(वि-अ)क्ति- आनन्द°,
तद्°, नाद°, निजधर्म°, निज-

शक्ति°

अभि/शंस्>*अभि-शंसिन्-
अवृत्त°

अभि-शरत्त- पतित°

+अभि/दाङ्>अभि-दाङ्गित-
अन्°

अभि/पि(<ति)च्>न्च्>

अभि-पिक्त- योगपट्ट°, राज्य°

अभि-पेक- २जल°, पट्ट°, पूर्ण°, लिङ्ग°

*अभि-पेचन- स्नान°

+अभि/प्व(<स्व)ञ्ज्>अभि-
प्वङ्ग- अन्°

+अभि-सं/घृ(वरणे)>अभिसं-
घृति- परतन्त्र°

अभि-सं/स्तु>अभिसं-स्तुप कौ
२, १४५°.

अभि-सं/घा>*अभिसं-(ध)>-
घा- अवृत°, १सत्य°

*अभिसं-धान- अन्°, १फल°

अभिसं-धाय अन्°

अभिसं-धि- प्रतिपत्ति°

+अभि-सं/मा(माने)>अभिसं-
मित- कामकलाचारुर्ष°

+अभि/स्तिङ्>अभि-स्नेह- अन्°
अभि/हन्>अभि-घात- दुःखत्रय°
*अभि-पातिन्- ?तय°

अभि-हत- कालघात°

अभि/ह्>*अभि-हार- २समान°
अ-धीक, फा- -कः वा १२°; -काम्
त्रि १३°.

+अ-भीति- १इष्ट°, १शङ्क°°
अभी(भि/ई)र्>रि, अभ्येरन्यत
मना १, ४५५°.

अभी(भि/ई)र्>रि, अभ्येरन्यत
मना १, ४५५°.

अभी(भि/ई)र्>रि, अभ्येरन्यत
मना १, ४५५°.

अभी(भि/ई)र्>रि, अभ्येरन्यत
मना १, ४५५°.

अभीष्ट-दिदि- सर्व°

अ-भूत- -तम् पा ४, ५.

अ-भेद- -दः पायु २, २९. [°द-
अर्थ°, आत्मन्°, तद्°, भेद°,
पाठ्यपाठ्यता°, सर्व°]

*अभेद-भाय(न>)ना- -ना भा
३३°.

*अभेद-रूप- स्वकाव्यह्...द°

अ-भोक्तृ- भोक्तृ°

अभ्य(भि/अ)ञ्ज्>अभ्य(भि-अ)-

ञ्- चौर°, दन्तधावन°, पाद°

*अभ्य(भि-अ)ञ्ज- चौर°, ताम्बूल°

+अभ्य(भि-अ)न्तर(>ः) वाक्°

अभ्य(भि-अ)न्तर- अन्तर°, अर्थ-
मास°, तद्°, दिमास°, नासा°,
निरतिश...राशि°, पाठ्य°, ब्रह्म-
तेजोराशि°, मास°, परमास°,
स्वयं...जाल°

*अभ्यन्तर-प्रपञ्च- अण्ड°

अभ्य(भि/अ)र्ष्>*अभ्य(भि-अ)-
र्षन- पाठ्यदेव°

अभ्य(भि-अ)र्ष्ये अन्°

अभ्य(भि/अ)र्ष्>अभ्य(भि-अ)-
र्षित- -स्तम् आबो १५°.

अभ्य(भि/अ)स्(लेपयो), अभ्यसे गर्भे
धृ°.

अभ्यस्यते अना २९°.

अभ्य(भि-अ)सन- एकार्थ°,
१मद्व°, स्वाध्याय°

अभ्य(भि-अ)स्त- अन्तजनमन्°,
चिर°, जन्मजन्मन्°, जन्मान्तर-
शत°, १दृष्ट°

अभ्या(भि-अ)स्त- अधिकतर°, अने-
कजनमन्°, अन्यरात्तु°, अम-
जस्क°, एकतर°, चिर°, ज्ञान°,
ज्ञाननिर्मयन्°, तत्त्व°, तद्°, दशा-

a) शेष इति आन., *अभिमेव इति शांथा ४, ११। b) शृङ्खल इति सात.। c) शत इति आख्या.।

d) शृङ्खल इति शांथा ५, ४। e) संभूय इति आन., शांथा ४, १४। f) के इति वे.। g) कान् इति आख्या.

ताम्रि.। h) अर्ष्ये इति मा ३२, १० (तु. टि. परि. वैपश् यस्था.। i) तात्रि. अपा.। j) 'स्वार्हितम्' इति श्रु ९,

११३; ७। k) 'सेव' इति आन., 'समाश्रये' इति आख्या.। l) 'अभ्यसतः' इति आन.।

चतुष्टय^०, १इदं^०, ध्यान^०, ध्यान^०,
 ध्याननिर्मयन^०, नानोपनिपद^०,
 निज^०, २पवन^०, पूर्णिमा^०, पूर्व^०,
 पूर्वजनमकृत^०, प्रथम^०, प्राण^०,
 भूमिकात्रितय^०, भूमिकापत्रक^०,
 मन्त्र^०, यमाद्यासन...ठ^०,
 २शोग^०, रस^०, विद्या^०,
 विधि...न्त्र^०, विरामप्रत्यय^०,
 २वेद^०, वेदान्त^०, वैराग्य^०, शास्त्र...
 कं^०, षष्मास^०, सकृत^०, सदा^०,
 सर्वविद्या^०, सर्वोपनिपद^०, सांख्य-
 शास्त्र^०, स्व^०
 अभ्यास-प्रयोग- तद्^०
 अभ्यास-योग- नोन लु १४^०.
 [ग- संतत^०]
 +अभ्यास-वद्- अन्^०

१ अभ्यस्तूय २ प्र ३४ : १४५^०
 अभ्या(भि/आ)प् > ईंस् > +अभी-
 (भि-ईं)प्सित- विद्या^०
 +अभी(भि-ईं)प्सित- विद्या^०
 अभ्यु(भि/उ)ञ् > +अभ्यु(भि-उ)-
 क्षण- २जल^०
 अभ्युदि[भि-उद्/इ(गतौ)] > अभ्यु-
 द्व-भय- मुख^०
 १ अभ्युदित- अभि/वद् द.
 २ अभ्युदित- गप्. ५८६ द.
 अभ्यु(भि-उ)प/गम् > अभ्युप-
 गम- समवाप^०

१ अभि- > अभा > अभा-वारणा^०-
 -स्या यो ३, २^०; -स्यावाम् चो
 २, ३^०; गह १२^०.
 अ-मनस्क- अजाप्य^०, मदा^०
 अ-मर- नः क २७. [र- धरिल^०,
 अजर^०, अशेष^०, नर^०, ६ग^०]
 +अमर-वर- ब्रह्मविष्णुपुरन्दरादि^०

अमर-विभूषित > ता^० - ता राष्ट्र
 ४, ५८ : : : :
 +अ-मर्ष- १काम^०, निन्दा^०, निन्दा^०,
 हर्ष^० : : : :

अ-मल- लम् महा ६, ७५^०.
 +अमल-दूशन- १त्रिकाल^०
 +अमल-रूप- १केवल^०
 +अमल-शान्त-वृत्ति- सकल^०
 अमल-संसार-स्वरूप > पा- -पा
 महा ५, १०१.
 +अमला(ल-आ)म्-रम्- -रक्
 महा ५, १६०.
 +अमला(ल-अ)म्भस्- ज्ञान^०

+अ-मात्रा- मात्रा^०
 +अ-मायिक- मायिक^०
 +अ-मार्जन- तद्^०
 अ-मित- अखण्ड^०, अखण्डानन्द^०
 +अमित-तरङ्गिणी- यथा: त्रिवि
 ६, ३८^०.
 अमित-विक्रम- अनन्तवीर्य^०
 अ-मित्र- मित्र^०
 +अ-भीच- अन्^०
 अ-मुक्त- १मुक्त^०
 +अ-मुग्ध- मुग्ध^०
 अ-मूर्ते- मूर्ते^०
 अ-मृत- -ता: मैत्रि ३, २^०; प्रा २,
 १^०; -तम् मना १, २^०;
 अशि ६, १७५^०; सुवा ५१^०.
 [त- अखण्डानन्द^०, अखण्डै-
 करस^०, अति^०, अन्त^०, अपार^०,
 आनन्द^०, २कुलाकुल^०, ज्ञान^०,
 तद्^०, इष्टि^०, धर्म^०, धर्म^०, पञ्च^०,
 पर^०, परम^०, परमानन्द^०, परिपू-
 र्णचन्द्र^०, १ब्रह्मन्^०, १ब्रह्मानन्द^०,
 मस्तकरत्न^०, सुद^०, यज्ञशिष्ट^०]

यद्^०, विद्यानन्दमय^०, विराजा^०,
 १विश्व^०, शक्ति^०, शक्तिशोभ^०, १शि-
 व^०, शिवशक्ति^०, शुद्धज्ञान^०, शुद्धबो-
 धानन्दमय^०, इत्^०, संतोष^०, सु^०]

+अमृत-कलश- अमृत^०
 +अमृत-कल्लोल- स्वात्मानन्दा-
 नुभव^०
 +अमृत-दृष्टि- विलसत्^०
 +अमृत-नदी- निरतिशयानन्दमय^०
 +अमृत-नाद^० - कठवल्ली^०
 +अमृत-निधि- निरञ्जनाभ्यक्त^०
 +अमृत-पुष्प- ब्रह्मकल्पवन^०
 +अमृतपुष्प-वृष्टि- संतत^०
 +अमृत-फल- अमृतवल्ली^०
 +अमृत-विन्दु^० - कठवल्ली^०
 +अमृत-बीज-द्रव्य- प्रणव...त^०
 अमृत-भाग- विन्यस्त^०
 अमृत-मय- मिष्ट^०
 अमृत-रस- परमानन्द^०, १ब्रह्मा-
 नन्द^०, मिष्ट^०
 +अमृत-सार- २निरतिशयानन्द^०
 +अमृत-सागर- अत्यादवर्ष^०,
 २निरतिशयानन्द^०
 +अमृता(त-अ)ङ्करक- अन्तर^०
 +अमृता(त-अ)दिध- निखिल...र्ण^०
 +अमृता(त-अ)मृत-कलश- दुग्धो-
 दधिमध्यस्थित^०
 अमृतो(त-उ)दक- समुना^०
 अ-मृत्यु- -त्यवे को १, २. [त्यु-
 १विद्व^०]
 अ-मेष्य- मेष्य^०, मुखदुःखालय^०.
 अमेष्य-क- अमेष्य^०.
 अ-मो(घ >)घा^० - घा राष्ट्र ४, ५९.
 [घा- विराजा^०]

a) म्यंस्व यो^० इति अच्चा. । b) 'अमिस्य' इति गोमा १, १, २५ । c) 'स्याम् इति अच्चा. संदि. ।
 d) 'स्याम् इति अच्चा. । e) 'स्याम् इति निशा. । f) एप. = उरार-बीजादर- । g) पा. 'मल- > -लैः' इति
 चोचः द. । h) अमितः त^० इति निशा. । i) बरा. द. । j) 'आधितः' इति सात. । k) विद्वया^० इति निशा. संदि. ।
 l) अया. इति श्वा गप्. ५८९८ नापेक्षितम् । m) सेमा १०, १, ३ (एतद्वत् गप्. ५८९८ चोचः द.). n) गप्. (५८९)
 एष्य. पनि. चोचः द. । o) = नदाप्योविपदिशेष- । p) बरा. द. । इह = उरार-बीजादर-, नाभीविशेष- ।

१अभ्यक- द्वि०

अभ्यक^१- अमल^०, २आशां^०, कुम्भ^०, चर्मन्^०, १चित्^०, दिव्य^०, दिश^०, ३पीत^०, माल्य^०, ह्कम्^०, विचि-
त्र^०, विमल^०, वेष्टन^०, वैद्यत^०,
प्याद्यचर्मन्^०, ६सं^०, २सितं^०,
१हृद्^०

१अभ्यरीप- सुयुप्र^०

अभ्या- जगत्^०, ३त्रिपुरा^०, १त्रक्ष-
न्^०, २अभर^०, राजरयामला^०,
श्रीराजरयामला^०, ६सं^०

अभ्यिका- औपल^०

१अभ्यु- आमपट^०, प्रास^०, २दुग्ध^०,
पयसोत्^०, पयस्^०, बाप्य^०,
महाकल्प^०, मृगवृष्णा^०, १लवण^०,
२यासना^०

१अभ्यु-कण- पल्लव...लम्ब^०

अभ्यु-ज- पाद^०, मुख^०, युग्म^०,
३रक्त^०, वदन^०, व्योमन्^०,
सौवर्ण^०, २हस्त^०, हेमन्^०

अभ्यु-धि- आनन्द^०, दुःख^०

१अभ्यु-निधि- संसार^०

अभ्यु-मण्डल-भूपित^०- -तम् यो
२, १७.

१अभ्यु-राशि- ज्ञानामृत^०

अभ्यु-रुह- हृदय^०

अभ्यु-स्- -स्मः राप् ४, ६३१^०.
[०-स- अकृत^०, अमल^०, कुयुग्म^०,
२दधि^०, भूमि^०, सागर^०]

१अभ्यु-ज- मुख^०, वदन^०,
स्वान्त^०, हृदय^०

१अभ्यु-धर- १काल^०

अभ्यु-धि- अखण्डसुख^०

१अभ्यु-निधि- ब्रह्मानन्दामृततरस^०

१अभ्यु-रुह- पाद^०, हृदय^०

१अभ्यु-रुह-गर्भ-भू- १सिव^०

अभ्यु- कटु^०, मयुर^०

✓अभ्य प(रा>)ला, वि^०

१अभ्य- अयु^०, अभ्युद्^०, अव^०,
अस्तम्^०, उद्^०, उव^०, ऊत^०, प्रति^०,
प्रत्यव^०, विपरि^०, सम^०, समयु^०,
समव^०, समुद्^०, संपरा^०, २सह^०

अभ्य- अभ्युद्^०, उद्^०

अभ्यन्ती- -न्तीम् पा ९, ६.

१अभ्यन्- १अनाराक^०, अरयव^०,
उत्तर^०, उदक्^०, उव^०, म्रतु^०,
एक^०, चन्द्र^०, ज्योतिषाम्^०, २दक्षि-
ण^०, पक्ष^०, पर^०, पार^०, १पुत्रप^०,
प्र^०, प्रत्या^०, ब्रह्मामृततरस^०, १त्रा-
हण^०, माध्वदिग्^०, रस^०, १राम^०,
विपुष^०, संकल्पक^०, सत्र^०, समुद्र^०

१अभ्यमान- वि^०

अभ्यस- > अया- विण्ड- तात^०

१अभ्यस- १रूपण^०

१अभ्यस-कार- अग्नि^०

१अभ्यस- प(रा>)ला^०

१अभ्यस- अन्तर्^०, अभिप्र^०, परि^०

१अभ्यसिन्- आतत^०

अ-यज्ञोपवीतिन्- -ती या २, १४.

१अयन्- ✓अय् द.

२अयन्- ✓इ(अध्ययने) द.

अ-याचित- याचित^०

अ-युत्- अद्^०, अयुत्^०, अष्टम्^०,
३कल्प^०, कल्पकोटि^०, द्वि^०,
१सूर्य^०, स्वर्णस्तेयश्च...प^०

१अयुत्-कोटि- प्रणव^०

१अयुत्-कण- ३शेष^०

अ-योग- उत्तर^०, उपादान^०, एककाल^०,
जडप्रकाश^०, उद्^०, वन्द्य^०

अ-योग्य- योग्य^०

✓अर् आ^०, पया^०, प्र^०

१अर्-> अर्म् मना २, ६३१^०!

१अर्ला- पदा^०

१अर्त- आ^०

१अर्ति- आ^०

२अर्- अयुत्^०, अष्टम्^०, १चक्र^०, चतुर्^०,
चतुर्दशन्^०, उवलत्^०, तदन्तर^०,
त्रिदशत्^०, १दक्षिण^०, दशन्^०,
२द्वान्त्रिंश^०, द्वान्त्रिंशत्^०, द्वादशन्^०,
पयन्^०, प्रति^०, शत^०, शतार्थ^०,
१शून्य^०, पश्रात^०, पप्^०, पष्टि^०,
पोटरान्^०, सहस्र^०

१अर्(क)- द्वादशन्^०

१अर्-युग्म- अनन्तर^०

२अरण-> अरण्य- नैमिष^०,

३वृन्दा^०, वन^०, सिद्ध^०

अरण्य- ग्राम्य^०, १वृद्धत्^०

अरण्य-क- १वृद्धत्^०

अरणि- -गिम् ध्या १८^०; -णी वृ ६,

४, २११^०. [१णि- उत्तर^०]

अरमा- -मा धुवा १११^०.

१अरविन्द- २चरण^०

अरि- इन्द्रिय^०, गदा^०, २भल^०, १भित्र^०

सुर^०, सुहृद्^०, २स्मर^०

१अ-रिपु- -पुः १संन्या २, ३७.

अ-रिष्ट- पदन्थास^०, योगिनीकालाश-

निहृत^०, १शह^०, समस्त^०

१अरिष्ट- पलाशाङ्कुरज^०

अरुण- कुडकुम्भ^०, १रुक्^०

१अरुणि- केन^०, २संवर्तक^०

अ-योग-> आरोग्य- अर्^०, आयुस्^०,
१वत्^०

अर्गल- अर्^०, कफादि^०, १ब्रह्मन्^०,

६सं^०

✓अर्घ्य-> अर्घ- महत्^०, मम्^०

a) =नेत्र- (यु. अया.)। b) वप्रा. द.। इह =व्योमन्-, २वासस्-। c) प्य. =अनुस्वार-।
d) वप्रा. द.। इह =२बल-, वकारबीजाक्षर-। e) अभमः इति निशा. यनि. शोषः द. (दु. आन., अज्ज.)।
f) भावे कर्तृणि वा कृत्। g) वया. द.। h) यज्ञो इति निशा.। i) गप् (यृ१२) यनि. संख्यानिर्देशः द.। j) ट्. गप्.
यृ२६९। k) कर्तृणि कृत्। l) आन. अया.। m) ष्ट १०, १८४, ३। n) व्युः? =नाडीविशेष-। o) गप्. (यृ१३)
यनि. शोषः द.। p) व्युः? =१कमल-। q) तस.। r) व्युः?।

शब्द°, सर्वे°, स्त्री°
 अलंकार(र-आ)य- माल्य°°
 अलं-कृत- अलंकार...रण°, वन-
 क...मुक्ता°, चैतन्यराजि°°
 मौक्तिकायामरण°, यामिनीनाथ-
 लेला°, वज्रपुण्डवन्नपञ्च°, वज्र-
 पञ्च°, सर्वे°, साधु°, सीता°, सुख°
 अ-लक्ष्मी- शमीम् मना २,६६!१°
 अ-लक्ष्य- लक्ष्य°
 अ-लज्जा- श्याम°°
 अ-लक्ष्म- अलक्ष्य-भूमिक->अ-
 लक्ष्यभूमिक-रव- व्याधि°°
 अ-लल- निद्रा°
 आलस्य- श्लुधु°, निद्रा°, प्रमाद°,
 रतिभररस°, व्याधि°°
 अलावु- मृदु°, श्वेदा°
 अलाव्या(तु-आ)दि-पात्र- उक्त°
 अ-लाम- लाम°
 अ-लिङ्ग- ऋ- नाप ४, ३५. [°ऋ-
 विशेष°°]
 अ-लोक- लोक°
 अ-ल्प- अल्प- अति°, अन्°, सु°
 अ-ल्प(रक्षणे), अवतु १ प्र ३० : १.
 अ-ल्प- वन°
 अ-ल्प- मनआदि°
 ओम->ओम्>ओम्->
 ओम् अशि ७०°
 ओ/कु>ओ-कार-आद्यन्त-
 निहित°, षट्मोर्मात्मक°, तुरीय°,
 दोषाःव्यातमाकृतवर्ष°, व्याधुप°,
 प्रणव°, प्राण°, ६स°
 ओ-कृत- अन्°
 अ-अ(हितायाम्) गप. ५२११b द
 अ-अ/काश>अ-कार- अन्°,
 प्रमाणान्तर°, इत°
 अ-अ/कुण्ड>अ-अ-कुण्ड- अन्त°
 अ-अ-कुण्डन- अन्तद°

अ-अ/कृ>किर>अ-अ-कीर्ण- मेदो-
 मांसैर्दे°, सप्तद्वार°
 अ-अ/क्षि(क्षये)>अ-अ-क्षयण-
 अन्तार°
 अ-अ/गम्>अ-अ-गति- तद्°
 अ-अ-गम- प्रलक्ष°, एकल°
 अ-अ-गम्य- स्व°
 अ-अ/गाह>अ-अ-गाहिन्- १एक-
 भाव°
 अ-अ-अ- उष°
 अ-अ-अ- अयत्न- अयत्न°, हेयत्न°
 अ-अ/च्छिद>अ-अ-च्छिन्न- अन्°,
 एकभिन°, २पवन°, प्रकृति°
 अ-अ-च्छेद- अन्°
 अ-अ-अ- अ-अ-कृन्- कृन् भैत्रि दि,
 २८°.
 अ-अ/संस्>अ-अ-संस्- २वेद°
 अ-अ-संस्(क)- १सोम°
 अ-अ/तु>अ-अ-तरण- २जल°
 अ-अ-सार- ईधर°, एवाद्शशद°,
 कला°, कल्कि°, १वृम°, २कृष्ण°,
 दसान°, नारायण°, वसिष्ठ°, परशु-
 राम°, २बुद्ध°, मत्स्यकूर्मादि°,
 २रुद्र°, रामकृष्णादि°, वराह°,
 २वामन°, वीरभद्र°
 अ-अ-यच,चा- अन्°, निद्र°
 अ-अ/धा>अ-अ-धान- ६स°
 अ-अ-धि- धि- इ ११:१६ [धि-
 अक्षुण्ण°, अक्षुण्णिल°, कर्णविल°,
 तद्°, दक्षनासापुट°, निद्र°, परम°,
 पादाक्षुण्ण°, ब्रह्मविल°, सूमत्य°,
 मास°, मेढ्रान्त°, मोचन°, वामना-
 सापुट°, शाखा°, ३श्रवण°, परमा-
 स°, सम्पन्ननादलय°, सर्वचिन्ता°,
 सर्वसमृद्धपानद°, सर्वेतरभृति°,
 सहस्र°, हृत्पत्र°, हृदय°]
 अ-अ-हित- नः कौ ४, १९, १६.

अ-अ/धु>अ-अ-धुत- कठवली°°,
 उडोचक°, तुरीयातीत°, परम-
 हंस°°
 अ-अ/धु>धारि>अ-अ-धारण-
 अन्°
 २अ-अ-धार(ण)गा- संस्वर°°
 अ-अ-धुति- तद्ब्रवी°
 अ-अ/नम्>अ-अ-नत- प्रथम°
 अ-अ/नह>अ-अ-नह- अन्तम्°
 अ-अ/घन्धु>अ-अ-घन्धु- १अति°,
 इन्दुसख°
 अ-अ/वुधु>अ-अ-वोध- तत्प°, खप्र°
 अ-अ/वृ>अ-अ-वृ- अन्°
 अ-अ/भक्षु>अ-अ-भक्षण- सर्व°
 अ-अ/भास्>अ-अ-भास- अना-
 यन्त°
 अ-अ-भासक- २कृष्ण°, २घट°,
 अतिवृत्ति°, तत्पदार्थ°, देह°
 अ-अ-भासित- परोक्ष°
 अ-अ/मन्>अ-अ-मान- १मान°,
 शीत°°
 अ-अ/मु(मिश्रणे)>अ-अ-यव- अ-
 नन्त°, अमृत°, अयुत°, निद्र°,
 पयन्°, विकार°, रात°, ६स°,
 समप्र°, समस्त°, सर्व°, सदस°,
 सहस्रकला°, सूक्ष्म°, स्व°, स्वदेद°
 अ-अ-पर- पर°
 अ-अ-पर-अ-अ-शुल- शिरःशुल°°
 अ-अ/रम्>अ-अ-रत्न- अन्°
 अ-अ/रुधु>अ-अ-रुध्य अन्°
 अ-अ-रोध- तृतीयशब्द°, सम्पन्नान°
 अ-अ-रोधन- एकपन्°
 अ-अ/रुह>अ-अ-रोह- आरोह°
 अ-अ-उर्ध्व- उर्ध्व°
 अ-अ-उर्ध्व- ऋषि°°
 २अ-अ-वर्ण- गप. ५१०३ द.
 अ-अ-वर्तिन्- विशार°

a) गप. (५१८) सत्य. °दमीः इति पा.इ यनि. शोधः द. (तु. तैआआ १०,६६)। b) अज्याः शै. अया।
 c) गप. (५१००) यनि. संक्षयानिर्देशः द.। d) अतु.इ.। e) अतु.इ. इति सात.। f) अतु.इ.। g) अतु.इ.। h) अतु.इ.। i) अतु.इ.। j) अतु.इ.।

अव/लम्ब>अव-लम्ब- परिग्रह°
 +अव-लम्बन- आस्मत्प्रत्यय°
 +अव-लम्बित- प्रफुल्लित...त्°
 +अव-लम्बित्- रचैत्य°, निरति-
 शयाकार°, राजदन्त°
 अव/लोक>कि>अव-लोक-
 आत्मन्°, १द्वन्द्वन्°, २लीला°
 +अव-लोकन- आत्मन्°, द्वादशा-
 दित्य°, परिणाम°, १द्वन्द्वन्°,
 ब्रह्मात्र°, लक्ष्यत्रय°, सच्चि-
 दात्मन्°
 अव-लोकयन्- अन्°
 +अव-लोकित्- नासाम्°, युगमात्रा°
 +अव-लोकित्- अर्थ°
 अव/शिष्ट>अव-शिष्ट- देहमात्र°,
 विद्याभक्तप्रपञ्चवागहितज्ञान°,
 विशिष्टदेह°
 +अव-शेष- सत्त्व°, १सत्स्वरूप°
 +अव-शेषक- वात्मन्°, चतुर्थांश°,
 स्वात्ममात्र°
 अव/ए(स्त)म्भ>अव-ष्टम्भन-
 बाण°
 अव/सद>+अव-सद- सतिल°
 अव/सु>अव-सर- प्रति°, वाता°
 अव/सो>सा>अव-सान-
 १आदि°, २आच°, १चित्°,
 तद्°, त्रिवृत्°, देह°, पूर्व°, सर्व°
 +अव-मित- तुरीय°, संप्रति°
 अव/स्था>अव-स्थ- १स्वरूप°
 २अव-(स्थ)स्था- अन्°, अन्य°,
 १उन्मनी°, एक°, कुम्भक°,
 १घट°, घट्ट°, जरा°, २आमत्°,
 जाग्रदवस्थापुति°, जाग्रदवस्था-
 सुपुतिद्वीय°, जाग्रदवस्थापुति-
 मूर्ती°, जाग्रदवस्थापुतिमूर्त्ता-
 मरणादि°, जीवन्°, जीवात्म...
 क्य°, जप°, गद्°, तुरीय°,
 तुरीयातीत°, तुरीयानीतपद°

१द्वय°, धर्म°, ध्यान°, नव°,
 निद्रा°, निर्गुण°, पञ्चन्°, परिचय°,
 प्रलय°, बहुभय°, बाल्य°, बा-
 ल्यादि°, १भोग°, मथन°, मनो-
 न्मनी°, मरण°, यौवन°, रासादि-
 लीलाध्यान°, १पू°, १सम°,
 समता°, सर्व°, महज°, साक्षिन्°,
 साम्य°, सुपुति°, स्वप्न°
 अवस्था-त्रय- पूर्व°
 अव-स्थान- अन्°, अविच्छिन्नो...
 र्ण°, हृत्स्वरूप°, स्वप्न°
 अव-स्थित- तम् अशि ४°. [°त-
 अन्°, ज्ञान°, यथा°]
 अव-स्थिति- अन्°, अन्त्य°,
 प्रारब्ध°, स्वरूप°
 अवा(व/अ)च्>अवा(व-अ)च्->
 अवाक्>अवाक्-मुख- प्रपञ्च°
 अवा(व/आ)प्>अवा(व-आ)प्-
 अन्°
 +अवा(व-आ)प्- नित्यानन्द°
 +अवा(व-आ)प्- पार°
 २प्रवि- अज°
 आविक- -कम् वृ २, ३, ६. [°क-
 अन्°]
 अ-धिकल्प- भोत°°
 अ-विचार- तत्त्व°
 अ-विज्ञान- १विज्ञान°
 अ-विदित- विदित°
 अ-विद्या-^१ अनादि°, अनादिमूल°,
 अन्तःस्त्रील°, च्छन्...ल°, स्त्रील°,
 त्यक्त°, धर्म°, महामूल°, माया°,
 १मूल°, विद्या°, समल°, स्व°
 +अविद्या-कला- गोपीजन°
 +अविद्या(वा-घ)ण्ट- समल°
 +अविद्या-तमो-मोह- निरस्त°
 +अविद्या-तमो-मोहा(ह-अ)हंकार-
 प्रधान- निरन्त°
 +अविद्या(वा-घा)दि-वर्षम्-
 न्-

सदात्मकविविज्ञानदग्ध°
 +अविद्यो(वा-उ)पाधि- समस्त°
 अ-विभाग- कर्मन्°
 +अ-विभेद- आत्मन्°
 +अ-विरति- व्याधि°°
 अ-विरुद्ध- धर्म°, २वेद°
 अ-विरोध- उभय°
 १अ-विवेक- अन्त्य°, प्रधान°
 अ-विवेकिन- -किनः महा ३, १५.
 अ-विशिष्ट- ह्य°
 अ-विशेष- चोदनादि°, प्रलय°, मनो-
 लय°, विशेष°, साध्यत्व°
 १अ-विषय- अकर्तृ°
 +अ-विप्रभन- उच्छ्वास°
 +अ-विहित- विहित°
 अवे(व/ई)ञ्>+अवे(व-ई)क्षण-
 सम्भन्°
 अवे(व-ई)क्षमाण- अन्°
 +अवे(व-ई)क्षमाण- अन्°
 अ-वैयर्थ्य- विहितप्रतिषिद्ध°
 +अ-वैराग्य- धर्म°°
 अ-व्यक्त- केन°, निरञ्जन°, मूल-
 कारण°, व्यक्त°
 +अ-व्यतिरिक्त- स्व°
 अ-व्यपदेश्य- ज्ञानोदित°
 अ-व्यभिचार- प्रकाश°
 अ-व्यय- -यम् श्ले ६, १°°.
 अ-व्ययमान- -नः मैत्रि २, २°.
 +अ-व्यवहार- व्यवहार°
 अ-व्याकृत- कारण°, स्वाप°
 +अ-व्यापृत्ति- तरपरात्°
 अ-व्याहृत- -तम् मैत्रि ६, ६°.
 अश्र(व्याप्तौ) अभि°, परि°, वि°,
 सम्°
 अशानि- योगिनी°°
 +अश्रुयत्- अन्°
 अश्रुवान- वि°
 अश्रुवन्- १पुरय°, लोष्ट°

a) अन्त्या : शे. अन्त्या. । b) अश्रुः । c) अन्त्य° इति अज्ञान. (श्र. शं.). । d) अन्त्यय° इति मै २, २; शात. ।
 e) अन्त्या इति शात. ।

अश्व- अश्वतर°, गज°, गो°, दिव्य°, दुष्ट°, द्विज°, मनुष्य°, रवाय°, १सत्°, समन्°
 अश्व-तर- रक्षेत°
 अश्वतरा(र-श)श्व- > आश- तराश्वि- -शिमू या २५°.
 अश्व-पति- दुष्टुम्°
 अश्व-मेधा- शकं°, मक्षदह्या°
 +अश्व-शिरस्- महत्°
 अश्विन्- -शिनौ वृ ६, ४, २१५°; २२५°. [०न्-दिस्°, निष्वा- कर°]
 आश्वि(न>)नी- २भौम°
 +आश्वि- वि°, समु°
 +१भाश- अश्वि°
 +आश्वि->आश्वि-ह- -हाः कौ १, ३५°; -हात् कौ १, ४१°.
 √अश्व(भोजने)>आश्वि अति°, प्र°
 +अश्व- हुत°
 +१अशान- विप्लव°, हुत°
 २अशान- अति° अश्व°, आसन्°, दृती°, निर्°, मञ्च°, महत्°, मित°, मितहित°, मृष्ट°, लघु°, वहि°, ६स°
 √अशानाय् > अशानाया-अन्°
 अशित- १पीत°
 अशित-पीत-स्वीद-स्वादित- -तानि प्रा २, १°.
 +अशितुम् अन्°
 अश्वन्त्- अति°, अन्°
 +अश्व प्र°
 +आश्वक- अन्°
 +आश्वयित्वा प्र°
 +आश्विन्- अल्प°, अष्टकवत्°, असंक्लृप्तनाधुकराश्व°, आनन्द- मिष्ठा°, एकम्°, एकाश्व°, १कुण्ड°, चारलनम्°, वृष्°,

दृती°, मिष्ठा°, यशसिष्ट°, लघु°, सर्व°
 +आश्वन्- अन्°
 √अश(वलने) गम् ५११३ f. ६.
 अ-शक्ति- विपर्यय°
 अ-शान्त- शान्त°
 अ-शाययत्- शारयत्°
 अशीति- ३कल्प°, चतुर°, नवम्°, षडष्टुलदशम्°
 +अशीति(क)- ६स°
 अ-शुचि- अनित्य°
 +अशुचि-गन्ध- स्वदेह°
 अ-शुद्ध- शुद्ध°
 अ-शुभ- शुभ°
 +अ-शु(त्र)>श्रा- कपिला°
 +अ-शुश्रूया- -पया २प्र ३३:१०° b.
 अ-शून्य- शून्य°
 अ-शोष- > +अशोष-किल्बिष- सं- शान्त°
 +अशोष-कौतुक- विगत°
 +अशोष-चतुर- देलाविचलित°
 +अशोष-वेष्टित- निःशेष°
 +अशोष-परिमह- ह्यक्त°
 +अशोष-पानौ(प-शो)घ- निर्धूत°
 +अशोष-विधि-विप्रेष- विप्वस्ते°
 +अशोष-विशेषा(प-शं)श- शान्त°
 +अशोष-संरम्भ- विगत°
 +अशोष-संकल्प-कल(न>)ना- प्रोज्जित°
 +अशोषा(प-श्रा)भास-वस्तु- आ- रोपित°
 अ-शोक- साम°°
 +अशोक-यन्- मधुरावन°
 अशनुचत्- √अश्(व्याती) इ.
 अश्व- अश्वन्°, चतुर्°, दि°, षष्°
 अश्व- आनन्द°
 +अश्व-द्वि(पक>)पिकार- अस्मि°°

अ-श्रुत- अश्रुष्ट°
 अ-श्रुति- तत्सहभाव°
 अ-श्रीत- श्रीत°
 अश्ववर्ध- षट°
 +अपा(ड>)दा- लगर°, पूर्व°
 अएन्- चतुर°, दि°, ब्राह्मपादि°
 अष्ट-क- अष्टिमादि°, अनङ्गकुसुम्°, अनङ्गकुसुमादि°, अष्टम्°, कपाल°, १कोटि°, त्रैपुर°, २शुष्टि°, ध्वज°, नगेन्द्र°, पुरी°, प्रकृति°, प्राज्ञी°, २माह°, १वर्ग°, वशिष्वादि°, षष्°, निष्ठा°, सर्वविशिन्यादि°
 अष्ट-दल- चतुरस्र°
 अष्टदल-मूल- द्वितीय°
 अष्ट-पत्र- ६स°
 +अष्ट-पर्ण- १कमल°
 +अष्ट-पलाश- ह्यैरण्य°
 +अष्ट-मन्त्र- अष्टमूर्ति°
 +अष्ट-महाशक्ति->अष्टमहाशक्त्य- (हि-अ)ष्टाहधर- ००२ लां २१६:१०.
 अष्ट-(म>)मी- मी त्रिता ३, १६. [०मी- चतुर्दशी°]
 +अष्ट-मुख- चतुर्मुख°°
 +अष्ट-याम- षटिका°
 +अष्ट-विद्या- अष्टमूर्ति°
 अष्ट-विध- अकार...ध्यान°
 +अष्ट-विनायक- वक्तृएणादि°
 +अष्ट-शूला(ल-अ)म- ६स°
 +अष्ट-नीच- देवा°°
 अष्ट-श्राद्ध- देवविदिष्य...मेति°
 +अष्ट-हस्त- पूर्वानर°
 १अष्ट(श्र-अ)श्वर- नारायण°, श्रीमन्नारायण°, सूक्ष्म°
 +अष्टाक्षर-मन्त्र- नारायण°, नारायणमूर्तिह°, रामकृष्णश्री- कर°, श्रीकृष्णवामन°

a) गम्. (५१११) यनि. शोषः इ. । b) अष्ट १०, १८४, २ । c) अष्ट १०, १८४, ३ । d) तु. गम्. ५६८५:१ ।
 e) कर्त्तरि कृत् । f) भवे कृत् । g) °कम् इति अश्वम् । h) °यान् इति पाः (तु. शोभा १, १, २२) यनि. शोषः इ. ।
 i) तस. उप. = १धृति- । j) तु. वै ११, ५० । b । = नक्षत्रविशेष- । k) वस. (गम्. ५१११) यनि. संवयानिर्देशः इ. ।

२अष्टा(ष्ट-अ)क्षर(>)री^०- सूर्य^०
 १अष्टा(ष्ट-अ)ङ्ग- अष्टमहाशक्ति^०,
 यमनियमासन^० धि^०, यमादि^०,
 ६स^०

*अष्टाङ्ग-दर्शन- ६स^०
 अष्टा-दशान्->अष्टादशा(श-अ)-
 क्षर->अष्टादशाक्षर-मन्त्र-
 श्रीकृष्णवामन^०

+अष्टा-पद्^{१५}- २प्रवाल^०
 अष्टा(ष्ट-अ)युत- तावत्^०
 अष्टा(ष्ट-अ)र्ष- नारायण^०, ६स^०
 +अष्टा(ष्ट-ऐ)श्वर्य^०- अणिमादि^०

✓अस्(भुवि), अस्ति मउ०, ४९^०; अस्ति
 षेष्ठ, ३९^०; अस्मि वृ०, १५, १९^०;
 पृथि नापष्ठ, ३८^०; स्यात् मैत्रि
 ५, २^०. [अप^०, *अमिसमीक्षाम्,
 *धाराधयाम्, आविष्, *आ
 श्वसयाम्, *उपसंपादयाम्,
 *कषयाम्, *कल्पयाम्, *क्षमा-
 पयाम्, *जनयाम्, *जिज्ञास-
 याम्, *जीवयाम्, *तिरस्,
 *दशयाम्, *निवेदयाम्, *पूज-
 याम्, प्र^०, *प्रवेशयाम्,
 प्रादुस्, *प्रार्थयाम्, *प्रेषयाम्,
 *भक्षयाम्, *लालयाम्, *संपा-
 दयाम्, *संपूजयाम्, *स्थाप-
 याम्]

अस्ति ५न^०
 भास्तिक->भास्तिक्य-
 तपस्^०
 अस्तित्ता- परतन्त्र^०
 अस्तित्त्व- किंचित्^०
 अस्तिम->अस्ति-ता- प्रदण^०,
 धिनर्ष^०

* १सत्- सन् १आ ११?। [०-
 ४भ^०, १चित्^०, १निय^०]

सती- त्री(तीम्) इ १८:७.
 ✓अस्(क्षेपणे) अधि^०, अभि^०,
 अभिप्र^०, उद्^०, उपनि^०, नि^०,
 निर्^०, परि^०, प्र^०, प्रति^०, वि^०,
 विनि^०, विपरि^०, व्युद्^०, संनि^०,
 सम्^०, समभि^०, समुद्^०

+१असत्- अभि^०
 *असन- अभि^०, नि^०, निर्^०, वि^०,
 संनि^०, समभि^०
 +४असित- अभि^०

१अस्त- अधि^०, अभि^०, नि^०, निर्^०,
 प्र^०, प्रति^०, विनि^०, विपरि^०,
 संनि^०, सम्^०, समभि^०, समुद्^०

+अस्तवत्- अभि^०
 +अस्तव्य- निर्^०
 +अस्तुम् संनि^०

+अस्य अभि^०, अभिप्र^०, नि^०, निर्^०,
 विनि^०, व्युद्^०, संनि^०, समभि^०
 अस्यत्- अभि^०, निर्^०, परि^०
 +अस्यमान- अभि^०, उद्^०

+आस- अधि^०, अभि^०, इयु^०,
 उपनि^०, २जल^०, नि^०, परि^०,
 विनि^०, विपरि^०, संनि^०, सम्^०
 +आसम् सम्^०
 +आसिन्- मनि^०

+अ-संयम- संयम^०
 +अ-संयुत- पाणिपादादि^०
 +अ-संयोग- चक्षुःप्रकाश^०
 +अ-संकीर्ण- अत्यन्त^०
 १अ-सङ्ग- सामान्य^०
 १असत्- ✓अस्(क्षेपणे) द.
 २अ-सत्- १सत्^०
 अ-सत्य- १सत्य^०

+अ-संप्रमोय- अस्तुभूतविषय^०
 अ-संभय- उत्पत्ति^०, तद्^०, दृश्य^०,
 प्रकारान्तर^०, रागादि^०, सप्ता^०

सर्व^०
 अ-सर्व- सर्व^०
 +अ-सह- परिभव^०
 +अ-सहिष्णु- विकल्प^०, शरीरद्वेष^०
 +अ-साक्षिन्- सुपुत्र्यादि^०
 अ-साधारण- समस्त^०

*असाधारण-चिह्न- समस्त^०
 अ-साध्य- भक्ति^०
 असि^{१५}- ज्ञान^०, निशित^०, सुदर्शन^०
 १असित- गपू. पृ १२१ द.
 २असित- रसित^०
 ३असित- गपू. पृ १२१ द.
 ४असित- ✓अस्(क्षेपणे) द.

अ-सिद्ध->असिद्ध-त्य- सिद्धत्व^०
 अ-सिद्धि- आश्रय^०, ईश्वर^०, तद्^०,
 दृष्टान्त^०, सिद्धि^०, स्थिरशाय^०

+असी^{१५}- ३वरणा^०
 +अ-सीम-गुण- चातुर्य^०
 असु- आहित^०; गत^०, तृणावर्^०,
 त्यक्त^०

१असुर- अग्नि^०, अप^०, अनारमा-
 ख्य^०, ईश^०, गन्धर्व^०, गन्धर्व^०,
 -१देव^०, २लवण^०; ६स^०, २सुर^०

*अस्य->अस्य अभि^०
 अस्यक- अभि^०
 *अस्यत्- अन्^०, अभि^०
 असूया-अन्^०, १आशा^०, १वाम^०,
 क्रोध^०, जरा^०, निन्दा^०, मद्^०
 +असूयु- अन्^०

+असूरा^{१०}- विराजा^०
 +अ-सूरि- अन्^०
 अस्त्र^{१०}- मांस^०, रस^०
 १अस्त- ✓अस्(क्षेपणे) द.
 २अस्त->अस्तम् > अस्तमि[मू-इ
 (गती)] > अस्तम(मू-अ)प-
 उदय^०

a) द्विस. (गपू. पृ ११५) यनि. संख्यानिर्देशः द. । b) =प्रवर्ध- । c) द्विस. । d) मा ८, ३६ । e) शी १०, ८, २० ।
 f) का ४०, १, १६ । g) 'एहि' इति अय्या । h) 'अस्यत्' इति सात. ? यनि. शोध. द. । i) लंच' इति निष्ठा ।
 यनि. च 'अरति' इति च शोधः द. (प्र. अय्या.) । j) पा. ? यनि. शोधः द. । k) गपू. (पृ ११५) यनि. संख्यानिर्देशः
 द. । l) =उद्- (प्र. वे. १, ५, ३१) । m) व्यु ? =नदीविशेष- । n) व्यु ? =नादीविशेष- । o) =रफ- ।

अस्तमि(म्-इ)त- अन्°, प्रथम°
 अस्तयन्, अस्तय- अस्तम् √अस्
 (त्वेण) द्र.
 अस्त्र- अधोर°, अनल°, कवच°, काल-
 शकिका°, १कोड°, तद्°,
 दण्डक°, नारायण°, पाशुपत°,
 पुम्°, बैल(१त्रैण)व°, १अध्वन्°,
 महत्°, वमन्°, पद्त्रिसात्°
 +१अस्त्र(क)- १सत्°
 २अस्त्र-रु- गप्, घृ१२२ द्र.
 +अस्त्र-वह्निजाया- तदन्त°
 +अस्त्रा(स्त्र-अन्त>)न्ता- -न्ता
 तारा ८३:६.
 अस्थि- कपाल°, कार्पास°, केश°,
 केश°, १खच्°, १खच्°,
 दन्त°, दीर्घ°, मांघ°, मेदस्°,
 रस°, र्नावु°
 +अस्थ(स्थि-ञ)न्तर्-गत-
 ज्वर- अतिभयंकरज्वर°
 अ-स्पन्द- १कैवल°
 +अ-स्पष्ट- स्पष्ट°
 √अस्पृ->असुव->
 अपृष- सिद्धाज°
 अपृष-कृ(ल>)का-
 +अ-स्फुरण- कूर्पर°
 +अस्फुरण(ण-ञ)दर्शन- अनुष्ठा-
 दिस्वायव्य°
 अस्मद्-
 १अहम् अति°, १चित्°, जगत्°,
 त्वम्°, निद्°, प्रकृति°, स-
 (<तद्°), सङ्°
 अहं/ह्यु>अहं-कर्तु->
 +√अहंकरि>अहंकरव्यित-
 व्य- अन्°

अहं-कार- अन्°, अन्तःकर-
 ण°°, अविद्या°, अव्यक्त°, १आ-
 शा°, एपगात्रय°, कर्तु°, कर्तु-
 त्वभोक्तृत्वं°, कर्तृत्वभोक्तृत्वादि°,
 कर्तृत्वादि°, १काम°, क्रोध°,
 १घन°, चित्°, स्वप्न°, दम्भ°,
 निन्द°, निन्द°, निद्°,
 पाद°, पृथिवी°, प्राणादि-
 पञ्चायु°, १मनम्°, महत्°,
 माया°, रशिष्ट°, ६स°, संवल्य°
 +अहंकार-भाव- कर्तु-
 त्वादि°
 अहं-कृति-अन्°, लक्र°, दुर्°
 -निर्°, १मनस्°, महत्°, सर्व°
 अहं-ता- अस्तमित°
 अहं-भाव- अन्°, निर्°
 +अहं-वादिन्- अन्°
 +अहं-श्रेयस्- -यसे वृ ६, १, ७.
 मद्->मद्-अर्थ- ४अ°
 *१ममर्-मम अहम्°, ५न°, निद्°
 मम-ता- अनित्य...त्र°, पितृ-
 ...त्र°, माश°
 मम-स्व- एपगात्रय°, १काम°
 १मा- माम् क १, १, ४१°
 अस्य, अस्यत्-, अस्यमान- √अस्
 (त्वेण) द्र.
 +अस्य- चतुर्°, त्रि°, दशन्°,
 महान्धकार°, पद्°
 +अस्य(क)- षप्°, षोडशन्°
 +अ-स्थतन्त्र- स्वतन्त्र°
 अ-स्वातन्त्र्य- -न्त्यम् मै ४, २°.
 १अहर्°
 अहन्->+२अह- अण°, अणन्°,
 एक°, एकादशन्°, त्रयोदशन्°, १

त्रि°, दशन्°, द्वादशन्°, द्वि°,
 नवन्°, पञ्चन्°, २पुण्य°, प्रति°,
 १विध्व°, षष्ट°, सप्तन्°
 +अहर्- अपर°, पूर्व°, मध्य°, साय°
 +अहर्प- देवरय°
 १अहम् अस्मद्- द्र.
 +२अहम् वृ ५, ५, ४.
 १अहर्-
 +२अहर्- -हः वृ ५, ५, ३.
 १अहि- गप्, घृ१२८ द्र.
 २अहि->अहिर(प१)>अहिर-सु-
 ज्य- वीरभद्र°
 अ-हिंसा- श्लेषार्थ°
 १अ-हित- अपथ्य°, रहित°
 २अ-हित-
 अहो(धो) स्ता ३, ४.
 आ
 १आ गप्, घृ१२८ द्र.
 २आ यो ३, ३, ३^म.
 आ-कर्मिन्- आ/हृप् द्र.
 +आ/कल्->आ-कलय- कलना°
 आ-कल्प- आ/कल्प द्र.
 आ/काङ्क्ष->आ-काङ्क्षा-
 तल्लोकदर्शन°, निर्°, १भोग°,
 महावीलादर्शन°, लोकदर्शन°
 +आ-काङ्क्षिन्- १फल°, विषय°
 आ/काश्->आ-काश- अलण्ड°,
 अन्°, अन्तर्°, अन्तर्हृदय°,
 आत्मन्°, वाय°, गुणरहित°,
 २घट°, घटमठ°, १चित्°, चित्त°,
 तत्त्व°, वैश्वानर°, दहर°, पर°,
 परमहंस°, पिराडाण्ड...स्थ°

a) पृ. = वीजविशेष- । b) गप्, (घृ१२३) यनि. शोधः । c) गप् (घृ१२६) यनि. संख्यानिर्देशः द्र. । d) तमा ३, ११, ८, १। e) अस्वतन्त्रम् इति श्रव्यः । f) = अन्त्य. (गप् घृ१२७ यनि. संख्यानिर्देशः द्र.) । g) व्यसं = अत्रिपुत्रप- । व्युः । अस्मद्- इत्यस्यैव विशिष्टः प्रयोगः स्यात् [नृ. Jc.] वैतृ. यस्य मूलं च शं. प्रथ. च <√हृच् > / हा (त्यागे) चेति युगपदेव व्यु. द्विविध्यम् । h) गप्, (घृ१२७) यनि. संख्यानिर्देशः द्र. । i) व्यसं = आदिपुत्रप- । व्युः । अहन्- इत्यस्यैव विशिष्टः प्रयोगः स्यात् [नृ. Jc.] वैतृ. यस्य मूलं च शं. प्रथ. च <√हृच् > / हा (त्यागे) चेति युगपदेव व्यु. द्विविध्यम् । j) तस. । k) यत्. (गप् घृ१२८) यनि. संख्यानिर्देशः द्र. । l) पा. इति. शोधः द्र. । m) गप्, (घृ१२८) यो ३, १ इत्ययं यनि शोधः द्र. ।

पृथिवी^०, पृथ्वी^०, बाह्य^०,
 १ब्रह्मन्^०, भूमन्^०, मठ^०, महत्^०,
 महत्^०, इन्वाम्बरनिभ^०, श-
 न्द^०, शुद्ध^०, रयेन^०, श्रोत्र^०,
 १सू^०, १हृद्^०, हृदय^०
 +आकाश-देह- पवना^० ल्का^०
 आकाशा(श-आ)त्मन्- वायुप्रतिष्ठ^०
 आ/कुञ्च>आ-कुञ्चन- ऊर्ध्व^०
 आकुल- अधुपूर्ण^०, ज्वालमाला^०,
 तद्दर्शन^० व^०, निर्द^०, मणिरस्त-
 म्भ^०, मल^०, वि^०, सम^०
 +आ/कू>आ-कूल- परस्पर^०
 +आ-कृति- १वाच^०
 आ/कृ(करणे)>२आ-कार- अख-
 षट्^०, अखण्डमण्डल^०, अशीकृत^०,
 अज्ञानसुषुप्त^०, अण्ड^०, अत्याध-
 र्या^० ष्टि^०, अद्भुत^० प^०, अन्^०,
 अनन्त^०, अनन्तचित्^० र^०,
 अनन्तचिदा^० ष्टि^०, अनन्तचि-
 द्वि^० ष्टि^०, अनन्तदिव्य^० ष्टि^०,
 अनन्तपरिपूर्णा^० य^०, अनन्त-
 ब्रह्मण्ध^०, अनन्तब्रह्मते^०
 ष्टि^०, अनन्तमहा^० समष्टि^०,
 अनन्तानन्दविभूति^० ष्टि^०,
 अनन्तानन्दसमुद्रसमष्टि^०, अ-
 नेक^०, अपरिच्छिन्नतिरस्करि-
 णी^०, अपरिच्छिन्नानन्तदि^०
 शि^०, अपरिच्छिन्नानन्दसागर^०,
 अमल^०, अमिततेजःप्रवाह^०,
 अमिततेजोराशि^०, अमुतारस-
 मष्टि^०, अर्धचन्द्रसम^०, आदित्य-
 मण्डल^०, आनन्दैक्यन^०, उदिता-
 शुदित^०, एतद्^०, एवम्^०, कद-
 म्बगोलक^०, कमठ^०, कल्पित^०,
 कुक्कुटाण्ड^०, कुक्कुटाण्डसम^०,
 कुटिल^०, कुण्ठ^०, १केवल^०,
 गयन^०, गज^०, गणना^०, १चक्र^०,
 चतुर्भुज^०, १धिर^०, विद्वानन्द-
 तरा^०, चिन्मनःकलना^०, चै-
 तन्य^० तिरा^०, जगदीश्वर^०,

२जल^०, ज्ञान^०, ज्योतिर्मयलिङ्ग^०,
 तद्^०, तदाकार^०, तन्मभ्य^० ट^०,
 तप्तचामीकर^०, २तारा^०, दि-
 व्यमङ्गल^०, दीप^०, दीपशिखा^०,
 दुःख^०, द्विविध^०, धूम^०, धूम-
 शिखा^०, घृत^०, ध्वस्तमनन^०,
 नकिञ्चिद्वावना^०, निजमूर्ति^०,
 नियत^०; निर्द^०, निरतिशय^०,
 निरतिशयदिव्यतेजोमण्डल^०,
 निरतिशयदिव्यतेजोमण्डल^०,
 निरतिशयनिर^० ण^०, निरति-
 शयानन्दपरम^० ष्टि^०, निरति-
 शयानन्दपारावार^०, निरतिशया-
 नन्दब्रह्मण्धविशेष^०, निरतिश-
 यानन्दाखण्ड^० ष्टि^०, निरतिश-
 यानन्दानन्त^० त^०, निरतिशया-
 नन्दामृत^० न्द^०, निर्मलस्फ-
 टिक^०, पङ्कतम्भ^०, परमकौ^०
 र^०, परमचिद्वि^० ष्टि^०, परम-
 मङ्गल^०, परमाधि^० ष^०, २पा-
 वक^०, पुच्छ^०, प्रणवात्मकध्वनि^०,
 शुद्धित^०, ब्रह्मतेजोविशेष^०, १ब्र-
 ह्मन्^०, ब्रह्मानन्दमय^० गर^०,
 भगमण्डल^०, भास्कर^०, २भुवन^०,
 मण्डल^०, महदादिसमष्टि^०,
 लक्ष्मील^० व^०, वक्षिकण^०, वा-
 चाभोगोचरम^० र^०, वाचामगो-
 चरानन्त^० शि^०, वाचामगोचरा-
 नन्दतेजोराशि^०, वाचामगोचरा-
 नन्दब्रह्मतेजोराशि^०, विकल्पक-
 लित^०, विभु^०, विविध^०, विविध-
 वि^० गत्^०, १विश्व^०, विस्फुरता-
 रक^०, दृप्त^०, वेदिका^०, व्योमन^०,
 राव^०, शशमृष्टि^० त^०, शिवध-
 र्मा^० द्वार^०, शिवविज्ञान^० ष^०,
 शुद्धबोधपरमानन्द^०, शुद्धबोधा-
 नन्दमया^० शि^०, शुद्धबोधानन्द-
 विशेष^०, योद्धासमासमा^०, १क^०,
 सकल^०, संकल्पित^०, सर्व^०, सर्व-
 परि^० म्भ^०, सर्वादित^० षि^०,

स्वयंज्योतिर्महान्^०, स्वान्त^० हान्^०
 आकार-तस्(>); अक्ष ४, ३३.
 +आ-कृत- १स^०
 आ-कृति- अहंकार^०, अण्ड^०, अद्वय-
 कुञ्ज^०, अर्धचन्द्रसम^०, अष्टोत्तर-
 म^०, कालकाल^०, १कुण्डल^०,
 गोक्षणी^०, गोष्पद^०, चतुर^०,
 चरणद्वय^०, द्रव^०, द्वादशान्^०,
 निर्^०, पूर्णतर^०, ३भग^०, मकर^०,
 मत्पाद^०, २गण^०, विद्युत्^०, विमल^०
 वृद्ध^०, वृषभ^०, शून्य^०, श्रीवत्स^०,
 सूर्यमण्डल^०, स्थिरदीपनिभ^०
 +आकृति-वर्ण- त्रेतान्यात्मन्^०
 आ/कृप> १आ-कर्पण- जगत्^०,
 १मारण^०, साध्यादि^०
 २आ-कर्पण- साध्य^०
 +आ-कर्पिन्- अमृत^०, अहंकार^०,
 आत्मन्^०, १काम^०, चित^०, धैर्य^०,
 नामन्^०, १बीज^०, बुद्धि^०, रस^०,
 १रूप^०, शब्द^०, शरीर^०, सर्व^०,
 २स्पर्श^०, २स्मृति^०
 +आ-कृष्ट- आकर्षक^०
 +आ-कृष्टि- कर्मन्^०
 आ/कृ(विक्षेपे)>आ-कर- अनन्ता-
 वयव^०, करुणा^०, कुसुम^०, मणि-
 गण^०, विकार^०
 आ-कीर्ण- अतिशीतजल^०, अनेक-
 नयन^०, अनेकशिखर^०, चित्तमृ-
 त्यजन^०, हुम्^०
 +आ/कल्प(<कृप्)>कल्प>
 आ-कल्प- विविध^०, शुभ^०
 +आकल्प-जाल- छेः सौ १, १.
 आ/कम्>आ-कम्- यथा^०
 आ-कान्त, न्ता- अधार्मिकद्वय^०,
 कनकमय^० ल^०, जिह्वामर्कटिका^०,
 तर्जनी^०, १नित्य^०
 +आ-कान्ति- इन्द्रिय^०
 +आ/क्षाल>क्षालि>आ-क्षालन-
 १नित्य^०
 आ/क्षिप>आ-क्षिप- सत्कया^०

*आ-क्षेपिन्- बाह्याभ्यन्तरविषय°
आ/ख्या > *आ-ख्य, ख्या- ३ न्°,
 वनात्मन्°, २अनाहत°, अनीड°,
 क्षनेकानन°, अन्तःप्रणवनाद°,
 अपान°, अमल°, अमृत°, अ-
 विपा°, अव्यक्त°, आत्मन्°, २भा-
 धार°, आलस्य°, इडा°, इतिहास-
 पुराण°, उज्जयायी°, उड़ीयण°,
 उज्याण°, १काम°, कामरूप°,
 २काल°, कौस्तुभ°, गन्ध°, गाढ-
 सुति°, १घट°, चतु°त्वक्°,
 चित°, इचित्र°, जालंधर°, जीव°,
 जीविसा°, तद्°, १तुर्य°, त्रिकूट°,
 २दशम°, देवदर्शाति°, २द्वामिसा°,
 नवप्रथम°, नियम°, निर्°, ५नील°,
 पद्मकोश°, पद्याश°ण°, परम-
 तत्त्व°स्थ°, परमेस्वर°, परहंस°,
 पुच्छ°, पुरषपाण°, पूर्णेशिरि°,
 प्रकृति°य°, प्रणव°, प्राण°,
 प्राणायानसमान°, बीजाङ्कुर°,
 १ब्रह्मन्°, अर्ग°, २भर्त्री°, १भाष°,
 भूतात्मन्°, मन्त्रयन्त्र°, महत्°,
 मित्र°र°, सुदितासुदित°, मूल-
 चन्द्र°, भस्वुलाङ्गूल°, १मोक्ष°,
 २यम°, १राम°, रेचक°, १ललित°,
 लिङ्ग°, रलोहित°, वाक्पाणि°
 स्थ°, वासुदेव°, विद्या°, विद्या-
 नन्दतुरीय°, विपरीत°, विप-
 र्येय°दि°, विरुप°, विवेक°, रवि-
 शुद्ध°, १विद्य°, विषय°, विष्णु-
 महेस्वर°, ब्यान°, शक्ति°, शक्तिनी°,
 २शरम°, शिवशक्ति°, शुभेच्छा°,
 श्रीहृन्पा°, संशय°, संसार°,
 २सच्चिदानन्द°, सचिवि°, सादा°,
 सामवेद°, सुपुत्र°, सुपुत्रा°, स्वर°,
 स्वस्तिक°र°, हंस°, २हृल्लेखा°
 *आख्य(क)- २आधार°

आ-ख्यात्- नामन्°, निर्°
 *आ-ख्यान- कार्य°, तत्त्व°
 *आ-ख्येय- अन्°
आ/गच्छ्, गम्, धागच्छति कौ १,
 ३^१५; आगच्छति मै ५, ७^१७.
आ-गत- अन्°, गत°, तद्°,
 तीर्थयात्रा°, पूर्वा°म°, यथा°,
 शरण°, सु°, सुख°
 *आ-गति- उत्कान्ति°°, प्रवासय-
 मन°
आ-गम- अखिल°, अगम्य°, अल्प°,
 अशुभ°, १अहर्°, भात°, गम°,
 गमन°, गुरु°, ज्योतिष°, तत्त्व°,
 तर्क°, दूर°, प्रत्यक्ष°, रात्रि°,
 रास°, १शिव°, शैव°, सकल°,
 सर्व°, १सुरत°
 आगमा(म-अ)न्त- सर्व°
 *आगमन्ता(न्त-अ)थं- सर्व°
आ-गमन- गति°, गमन°, पुनर्°
 *आ-गामिन्- प्रारब्ध°°
 *आगस्- पूर्व°त°
 *आगस्(क)- अन्°
आगार- कारा°, कोष्ठ°, १देव°, निर्°,
 १शिव°
आज्ञीघ्न- अग्नि- द्र.
आ/चम् > आ-चमन- पाय°,
 पुनर्°, प्रयादि°, शुद्धि°
 आ-चान्त- अन्°
आ/चर > आ-चरण- उक्त°, तद्°,
 परमहंस°, भैक्ष°, १मङ्गल°, रामद-
 मा°कि°, स्वधर्म°
 आ-चरित- वेदीक°
 आ-चार- अन्यथा°, अव्यक्त°,
 आश्रम°, आहार°, ऊर्ध्वान्वाय-
 ...सिद्ध°, कर्मन्°, किम्°, ३कुल°,
 तद्°, तदनुकूल°, दम्भ°, दुर्°,
 पूर्व°, पेशल°, मिथ्या°, लोक°,

वर्णाश्रम°, १शिव°, १सिद्ध°,
 ६स°, १सत्°, २समय°, सर्व°,
 स्वाश्रम°, स्वच्छा°, हंस°, हला-
 वि°र°
 *आचार-नय- सर्व°
 *आचार-समारम्भ- नाना°
 *आ-चारिक-> आ-चार्य- ईश्वर°,
 श्रोतक°, पृथ्वीधर°, ब्रह्मस्वरूप°,
 मद्रपद्मपाद°, १सत्°, सनन्दव°
आ/च्छद् > *आ-च्छाद-
 भित्ताग्निसुख°
 *आ-च्छादक- १गुह्य°
 आ-च्छादन- कौपीन°, दरड°,°
 भोजन°
 आ-च्छादित- अव्यहन्तेशाज्ञान°,
 शेषकण°
 १-२ आज- /अजू द्र.
आ/जन् ? आजयेरच् वउ ३, २५;
 ४, २४.
 *आ-जन्मन्-> आजन्म-कृत-
 हत्या- समस्त°क°°
 *आ/जीव् > आ-जीव- सर्व°
 *आ-जीवद्-अवस्था- स्थम नाप
 ६, १^१६.
आ/क्षा > आ-ज्ञा- ईश° गुरु°, तद्°,
 १शिव°, हयश्री°ल°
 *आ-ज्ञात- अन्°
 १? आज्य- यप्. ५ १३४ द्र.
आ(आ/अ)ञ्ज् > २आ(आ-अ)ग्य-
 कापिल°, क्षीर°, तिल°, पृषत्°,
 मन्त्र°, ६स°
 आ(आ-अ)ञ्जन- भिन्न°
 *आङ्घ्रि- जगत्°, संसार°
 *आङ्घ्रि- मरिच°
 आङ्क^(१)- १लवण°
 आख्य- अङ्कुर°, अनन्यमार्ग°, अर्ता-
 वल्लोपन°, आदिप्रमुख°, आशा-

a) सकृत् °न्ति इति अख्या. । b) °ति इति निवा.। (तु. गप्. ५ १३१ सत्य.) यनि. शोषः द्र. (तु. मैत्रि ६, ७)। c) यया. द्र.। d) वैपरे यद्र.। e) व्यु. ? = अगार-। f) अ° इति पा.। यनि. शोषः द्र.। g) अरस.। h) °स्थम् इति निवा. °स्थाः इति अख्या. च पा.। यनि. शोषः द्र.। j, व्यु.।। j) व्यु. ? = परिमाणविशेष- ।

शरशलाका°, काठिन्य°, गन्ध°,
गुण°, गुणगन्ध°, गोतुल°, ज्ञान
मुद्रा°, दुःख°, हृदीभू...ग्म°,
घन°, घातु...भा°, पासादुश्च°,
१धीज°, भविष्य...ध°, माण-
लतामुगन्ध°, रतिगुण°, रस°,
रसगुण°, वज्रशूल°, ३वर°,
विचित्रार्म्भ°, राहच...क°, रात-
पत्र°, सर्वभोग°, सर्वसंजोवन°,
१दुग्ध°, सुशोभा°, सुमुगन्ध°,
सौभाग्य°

*आ/तद्कृ> आ-तद्- निर°
आ/तन्नु> आ-तन्- -तम् सं शां०।
[त- अन्°]

*आ-सान- प्राचीन°

*आ-तनु- -नु हं १११°।

आ/तप> आ-तप- १द्याया°
आतप-त्रा१- ध्वज°

*आ-ताप्त- रहित°

आ-तुर- -रः भव १, २१° [र- अनङ्ग-
मदन°, १काम°, २द्युत्पिपासा°,
द्वैतभय°

*आतुर-ता- अतिमान°

१आत्म-क- गपू. पृ१३४ द.

२आत्म-क- गपू. पृ१३५ द.

३आत्म-क- नाड. द.

आत्मन्- -मना द्वाग २५ : १११°।

-मनि भा३२ : -त्मा तु १०१°। पहं

४° : गौ६, ७ : -मानम् ध्या२२°।

[न्- अक्षय°, अक्षर°, अक्षरडैक-

रस°, अखिल°, अज°, अत्यन्त-

क°, अद्भुत°, अद्वैत°, अधि°,

अन्°, अनाय...स°, अनीशा°,

अनुभव°, अन्तःकरणचतुष्टय°,

अन्तर्°, अन्तर्धामिन्°, अश...म°,

अन्यता°, अन्यहीनस्वभाव°, अप°,

अपरिच्छिन्नरूप°, अपान°, अभ्य-

...क्ष°, अमल°, अमान°, अमृत°,
अभेय°, अवस्थाप्रयहीन°, अवि-
च्छिन्नचित्त°, अविनाश°, अभ्यक्त-
...चिन्°, अभ्यपदेश°, अभ्यय°,
असंयत°, असक्त°, अहंकारवि-
गूढ°, आकारा°, आत्म...
न°, आदित्य°, आदिद्रा...र°,
आदिहीन°, आनन्द°, आनन्द-
कोशाहीन°, आनन्दादिविहीन°,
इन्द्रिय°, उदान°, उभय°, एक°,
एकादशन्°, एतद्°, एपणा°,
आका...न°, कपोल°, कल-
रा...र°, १काम°, कामके-
...क°, कारण...न°, २काल°,
कालप्रयस्वरूप°, कुआन्तर...र°,
कृत°, केलिकौतुक°, १कैवल्य°,
केवला...द°, कैयल्य°, क्रम-
लीला°, क्रियाज्ञान°, च्चर°, गुण°,
गुणागुण...न° ब्राह्मक°, ब्राह्म-
भाव°, चतुर्°, चतुःसतन्°, चरा-
चर°, १चित्त°, चित्त°, चित्त...
ब्ध°, चिदचैत्याखिल°, १चिदा-
नन्द°, चिन्मय°, जगज्जा...र्थ°,
जगत्त्व...र्ग°, जड°, जडहीन°,
जित°, जीव°, जीवस्वर°, ज्ञान°,
ज्ञानमुद्रा°, ज्ञानवि...त°, ज्यो-
तिस्°, तरवम...न°, तद्°,
तुरीय°, तुरीयातीतरूप°, १तुर्य°,
तुष्ट°, त्रिमूर्ति°, १त्रिवर्ण°, त्रि-
वृत्°, त्रिवेद°, त्रेतामि°, वयड°,
दशन°, दुःख...त°, दुर्°, दुष्ट°,
दृगविशिष्ट°, दश्यानुविद्धहीन°,
१देव°, १देव°, देवहीन°, देह°,
द्वैताद्वै...प°, धर्म°, नष्ट°, नाना°,
नामरूप°, नामरूपविहीन°, नारा-
यण°, १नित्य°, नित्यक्रीडा°,
नित्यनिर्मलरूप°, नित्यप्रत्यक्ष-

रूप°, नित्यानन्दस्वरूप°, नित्या-
नित्यविहीन°, निद्रा...न्द°, नि-
यत°, निद्र°, निरययव°, निर्मल°,
निर्विकल्प°, १निर्विकल्पस्वरूप°,
निर्विकारस्वरूप°, निष्कल°, पञ्च°,
पञ्चप्रदान°, पर°, परम्°, परमात्म-
न्°, पीठ...स्°, पूर्ण°, पूर्णरूप°,
पूर्वजन्माश्रित°, प्रकाश°, प्रसा°,
प्रज्ञान...न°, प्रणव°, प्रत्यगा-
नन्द...प°, प्रत्यन्°, प्रथमसङ्ग...
त°, प्रधान°, प्रयत्न°, प्रशान्त°,
प्रसन्न°, प्राण°, प्रिय°, प्रीत°,
वन्धमोक्षस्वरूप°, वहिर्°, बाह्य°,
१युद्ध°, १वद्वान्°, ब्रह्मभूत°,
ब्रह्मयोगयुक्त°, ब्रह्मस्थावर°, १ब्र-
ह्मानन्द°, भस्मस्नानविशुद्ध°,
भानाभानविहीन°, १भाव°, भूत°,
१भोग°, मनःको...न°, १महत्°,
महत्°, माया°, मायापरिमोहित°,
१मुक्त°, मुक्तामुक्तस्वरूप°, मुदित°,
मूढ°, मूढ...शी°, मेय°, १मोक्ष°,
मोक्ष...प°, यत्, यमुना...र°,
यावत्°, युक्त°, २योग°, योगयुक्त°,
योजित°, यौवन°, रतिके...क°,
रतिसं...त°, रस°, रससंभोग°,
रागद्वेषवियुक्त°, रास...डा°,
लक्ष्य°, लक्ष्ण°, लय°, १लालित°,
लिङ्गसूत्र°, १वच्य°, वहि°,
विजित°, १विज्ञान°, विज्ञानचि-
...व°, विदित°, विद्या°, विद्या-
विद्यादिभेय°, विधेय°, विमूढ°,
विलीन°, १विशुद्ध°, १विश्व°,
१विश्व°, व्यान°, शक्ति°, शम-
सम°, शमादि...न्य°, शान्त°,
शान्ताशान्तस्वरूप°, शान्ता-
शान्तादिहीन°, शाश्वत...स°,
१शिव°, शिवज्ञान°, शुद्ध°,

a) ष्ट १, २२, २० । b) अ° इति अच्चा. ? यनि. शोधः द. (वैतु. 'तनु' इति निसा.) । c) ° इति पा. ?
(तु. गपू. पृ१३४) यनि. शोधः द. । d) 'आत्मा नः' इति पा. ? यनि. शोधः [एतदनु गपू. (पृ१३६) -मा इत्यत्र शोधः
द.] । e) तानि. अया. । f) पा. ? 'त्मना इति शोधः द. । g) अच्चाः सं. अया. । h) 'स्वदेहम्' इति अयन. ।

शुद्धचैतन्यरूपं, शून्यं, श्रीराधा-
 ...हं, पोडरा...नं, संशयं,
 संहितं, सकलं, सगुणं, संक-
 ल्यं, सच्चित्, १सच्चिदानन्दं,
 राचिदानन्दपूर्णं, सच्चिदानन्दा-
 द्वैतैकचित्, सत्तामात्रस्वरूपं,
 सत्त्वं, १सत्यं, संन्यास...
 क्तं, सप्तम्, सप्तविरातिवर्णं,
 सप्तरूपं, सप्ताधिरूपं, १समानं,
 समाहितं, सर्वं, सर्वकारणकार्यं,
 सर्वतेजःप्रकाशं, सर्वदेवं, सर्व-
 भूतं, सर्वभूतात्मभूतां, सर्व-
 भूतान्तर्ग्रामिणं, सर्वशक्तिविहीनं,
 सर्वसंकल्पहीनं, सर्वसन्ननिवृत्तं,
 सर्वातीतस्वभावं, सर्वात्म- ०,
 सर्वान्तर्यामिरूपं, सर्वासर्वस्व-
 रूपं, सहस्रा...खां, साक्ष्य...
 नं, सुखं, सूक्ष्मरूपं, सूत्रं,
 १सूर्यं, १सोमं, १स्थायजज्ञमं,
 स्थूलदे...नं, स्वं, स्वप्रकाशं,
 स्वयम्, स्वान्तर्, हंसं]

३ आत्म-(क)- अकारोकारमकारप्र-
 गुणं, अकारोकारमकारार्थमात्रां,
 अक्षयं, अखण्ड...सं, अतिं,
 अमीषोमं, अच्युतं, अजडं,
 अयं, अनलं, अन्तर्, अमलं,
 अमृतं, अर्धनारीश्वरं, अर्ध-
 मात्रां, अविक्तियां, अष्टम्,
 २अक्षरं, १आकर्षणं, आकाशं,
 आत्मन्, आनन्दं, आविर्भा-
 ...नं, इच्छाज्ञानक्रियां, इच्छा-
 शक्तिं, उदकं, उदात्त...रं,
 उभयं, उमाद्यं, ऋत्वं, एकं,
 १एकद्विधां, एकद्वन्द्वियं, औप-
 धमेयं, कलां, कल्पवृक्षं, दमं,
 १कामं, कारणं, कारणगुणं,
 कार्यं, कालकर्मन्, किम्,
 २कृष्णं, क्रीडां, क्रोधं...नं,
 कुण्डलां, गद्यपद्यं, गमनागमनं,
 गह्वरं, गर्भं...यं, गुणं, गुरु-

संभवं, घृतं, चतुर्ध्वजगडं, चतु-
 र्मात्रां, चतुर्विंशतितत्त्वं, चतुष्क-
 टं, चराचरं, १चित्, चिन्मयं,
 चेतनाचेतनं, जगदाउम्बरं, जडं
 जरा...यां, जलाकारं, ज्ञेयं,
 ज्योतिर्मयं, ज्योतिस्, तत्त्वमत्र-
 ...ष्टिं, तद्, तदाका...तिं,
 तन्मयं, तमोमायां, तामसरा-
 जसं, तैजसं, त्रिं, त्रिशद्वर्णं,
 त्रिकूटत्रयं, १त्रिगुणं, त्रिविधं,
 त्रेतां, दशकलां, दशावरणं,
 दारिप...णां, द्वादशन्, ध्वनिं,
 नमस्तारं, नवनं, नानानन्दमयं,
 नामरूपं, नारायणं, नित्यान-
 ...सं, निर्, निर्गुणं, निरचयं,
 निष्कलं, पञ्चक्रियाशक्तिं, पञ्च-
 दशश्रृङ्खलं, पञ्चम्, पञ्चब्रह्मन्,
 पञ्चभूतं, पञ्चवि...त्वं, पञ्चशक्तिं,
 परं, परिचर्यां पादचतुष्टयं,
 पादत्रयं, २पावकं, १पुण्यं,
 १पुण्यं, प्रकाशं, प्रकृतिपुराणं,
 प्रचोदय्यात्, प्रणव्यं, प्रणवमयो-
 ...यं, प्रख्येशिरस्कं, प्रख्या-
 दि...न्त्रं, २प्रदनं, २प्राप्तं,
 प्राणं, प्रातर्...नं, प्रीत्य-
 ...दं, चिन्दुनादं, १बीजं,
 बीजत्रयं, १ब्रह्मन्, ब्रह्मविष्णु-
 म्हेस्वरं, ब्रह्मविष्णुशिवं, भद्र-
 भ्ये...यं, भूतिन्द्रियं, १भोगं,
 भ्रमं, मद्, मन्दराजं, माता-
 पित्रमलं, मृगटण्डलां...त्रं, मोहं,
 यज्ञकर्मवासनां, यत्किञ्चिदिदम्,
 २योगं, रसं, १रागं, राजस-
 नायां, रासकेलिकलां, छवर्णं,
 त्तिज्ञं, त्तिज्ञराश्रीं, २रदं, १वर्णं
 वर्णत्रयं, वहिसीमकलां, वान्यं
 २वासनां, वासनयवलयं, १वि-
 जयं, विरिधि...रं, विष्णुं, २वेदं,
 वैश्वानरं, व्यवसायं, व्यष्टिसम-
 ष्टिं, शक्तिं, शक्तित्रयं, शशिशु...
 नं, शारवतं, १शिवं, शिवशक्तिं
 २शुक्लं, शुद्धचैतन्यं, शुद्धश्रेष्म-
 द्यं, शैवं, श्रीभूमिनीलं, प्रण-
 वयङ्गुलं, पपीशनाथं, पोडरा-
 मात्रां, ६सं, संसारं, सकललो-
 केश्वरं, संकल्पं, संकल्पेचक्रासं
 संक्रोचविक्रमसाम्प्रक...सं, सच्चि-
 त्सुखं, १सच्चिदानन्दं, १सत्त्वं,
 सत्तामात्रं, सत्त्वं, सत्त्वत्रयं,
 सत्त्वर...णं, १सत्यं, सत्य-
 चित्, सत्यज्ञानप्राप्त्यं, शय्या-
 दि, सत्यानन्दचित्, सदसत्त्वं,
 सर्वं, सर्वकूटं, सर्वतत्त्वं, सर्व-
 देवं, सर्वलोकं, सर्वविद्यां,
 १सर्वशक्तिं, सात्त्विकमायां,
 सामान्द्रग्यसुप्तं, -गुलं, सुषिरं,
 सूत्रं, १सूर्यं, १सोमं, १स्थायर-
 जज्ञमं, स्फोटं, स्मरणमात्रं...वं,
 स्वभावं, हंसं, हरमायां,
 हिंसा -

+आत्म-कर्तृता- स्वं
 आत्म-गुणं- आत्मानवसंशयं
 आत्म-चिन्तक- प्राप्तायाम...नं
 +आत्म-चैतन्य- अद्वितीयं
 आत्म-ज- कोशलनीं, २जनकं,
 २पवनं, १ब्रह्मन्, मारुतं,
 वृषलं
 आत्म-तेजस- मोहराहुगुपितं
 +आत्म-दृशन्-यौग्यदृश्य- सत्त्व-
 शुद्धिं
 +आत्म-वितामह- विस्मृतं
 +आत्म-पुण्य- परमं
 आत्म-प्रकाश- अन्
 +आत्म-प्रबोध- ऐतरेयं
 +आत्म-बन्ध- अक्षयतायं
 +आत्म-बोधक- तेजस्
 +आत्म-भावना- सर्वभावं
 आत्म-भूत- सर्वभूतं
 +आत्म-भेद- नाता

*आत्म-मल-च्युति- -तिम् अना
२११.

आत्म-विज्ञान- -ने नाद २२५.

[०न- ध्रुत्युत्पत्तौ]

आत्म-विद्- अन्

*आत्म-विलासन- १नित्य०

*आत्म-विवेक- अप्रीड०

*आत्म-विषय- अन्

*अत्म-संरक्षण- निन्दा०

*आत्म-संस्तुति- निन्दा०

*आत्म-सिद्धि- अपरोक्ष०

*आत्म-स्वभाव- तूष्णीम्

आत्मा(त्म-आ)द्या(दि-आ)वरण-

*आत्मा(त्म-आ)सन- १सत्

*आत्मै(त्म-ऐ)नय- देवता

*आत्म्य- अन्

*आत्मन्- २वेद०

आ/दा(दाने)> *आ-द- दाय०

आ-दावच्य- अन्

आ-दान- -नात् मै ५,७. [०न-

त्याम्, द्रव्य०, नि. श्रेयस०, भाषा०

वचन०, सार०]

१आ-दि- ५अ०, अकया०, अकार०,

अज्ञि०, अग्नि०, अग्निकार्य०, अग्नि-

ष्टोम०, अग्निहोत्र०, अग्नीन्धन०,

अभ्ययस्कार० प्रभु.

*आदि(-क)- अखण्डकरत्, अग्नि-

देश०, अणिमन्, अन्तर्लक्ष्य०, अ-

क्षपानफल०, अक्षरत्, अहोरात्र०,

आकाशगमन०, आत्मन्, आदर्य-

क०, आसनसनयन०, २ इति०, इत्येव-

म्, इन्द्रिय०, उच्चयन०, ऋजुवक०

ऋत्ययन०, एषणात्र०, २, कलत्र०

न०, कामक्रोध०, कामकोधलो०, २, ३

काष्ठा०, २, क्रिया०, क्षौर०, २, ३,

शुरुशिव्य०, शुल्मप्लीहन्, २, ३, धर्मो

गो०, चन्द्रसूर्य०, जपदान०, जरा०,

छेदरजात०, १सार०, दहर०, २, ३,

धर्म०, धर्माधर्म०, २, ३, ४, नभो-

विहरण०, नामसंपत्ता०, निन्दानि०

ख०, न्यासप्यान०, पर०, ३, ४,

पशुपुत्र०, पाद०, पुत्रमित्र०, पूर्व०,

प्रशासतिमि०, प्रचारण०, ३, ४,

प्रणव०, प्रलय०, प्राण०, ३, ४, भोक्ष

१वीज०, वीजप्यान०, व्रद्धविष्णु०,

भूत०, महाभेरि०, मायाकार्य०,

१मूल०, २योग०, रहस्य०, २, ३,

घाराणसी०, विष्णु०, श्रुति०, शम०,

शरीरपोषण०, शीघ्र०, संकल्प०,

संकल्पकृतना०, सुरादुःख०, स्थान-

दानयजन०, स्वेदम्, ३, ४,

*आदि-काल- सर्व०

आदि-देव- १देव०

*आदि-नि(त्व)> >या- स्याः

त्रि १०१.

*आदि-निघन- अन्

आदि-महान्-> *आदिमहा-

(क्ष-आ)नुष्टुभ-राघव- -घाः रार

२, ३, ४.

आदि-भ- दुहित्

आदि-मत्- अन्

*आदि-मध्य- अन्

*आदि-मध्य-पर्यन्त- अन्

आदि-मध्या(ध्य-अ)न्त- अन्,

अनापन्न०

आदि-धराह- २मत्स्य०

*आदि-विष्णु- -ष्णुम् रा १३.

आदि-शक्ति- १शिव०

२आद्य- -द्येन रार २, १६.

[०द्य-अकार०, अकोष०, अगुह-

च०, २, ३, अज्ञव्य०, ३, ४, अन्,

अनन्त०, अजपूर्णा०, अहिंसा०,

अखण्डक०, आदित्य०, २ इति०,

इत्येवम्, ईशान०, उग्रसेनवसुदेव०

एलायद्रवजाग०, कदम्ब०, फल-

प्रपुत्रमित्र०, फलल०, १काम०,

कामक्रोध०, ३, ४, ५, ६, ७, ८,

कुन्डार०, कुन्डारुपायन०, २क्षार०,

क्षुण्णोष्ण०, ३, ४, ५, ६, ७, ८,

गोधूमचणू०, चन्दन०, चन्द्रा-

यती०, गुभगा०, चम्पकतल०,

१चिन्, जयन्त०, ३, ४, तप्तप-

राक०, ताम्बूल०, दधिदुग्धत०, ३,

दधिदुग्धपनवनीत०, दशाणू०, दीर्घ

दुग्धर०, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १०,

द्वारद्वारा- ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १०,

२नाग०, वृसिह०, पत्र०, पशु०,

पशुकीट०, पशुपक्षिन्, पाद०,

पूर्व०, प्रकृतिमहदहम्, प्रहाद०,

प्राण०, प्रीत्य०, ३, ४, ५, ६, ७, ८,

१प्रहन्, प्रह्लादविष्णुमहेश्वर०, प्रह-

द्वारकामेध०, भक्ष्यान्नपान०,

भूतत्रे०, ३, ४, ५, ६, ७, ८,

मणिगुणवलय०, मदनकला०,

मषा०, मधुप०, ३, ४, ५, ६, ७, ८,

महत्, मांस०, २मानृका०, मार्ज-

रमृषिक०, ३मित्र०, सुदरदण्ड०,

सुसलोलूराल०, सुलो०, ३, ४, ५, ६, ७,

दा०, १राग०, १राम०, रुचिमणी०,

२सलित्ता०, १लोह०, २चसिष्ठ०,

वस्त्रसूत्र०, वाग्भव०, वासुदेव०,

२वेद०, शक्तिशिव०, १शिव०, सी-

तो०, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १०,

सक०, सनातन०, सार्व०,

सीताभ०, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १०,

घ०, सुमेहे०, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १०,

३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १०, ११, १२,

२, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १०,

आद्य-त्रय- हिरण्यवर्षादि

आद्य(दि-अ)न्त- अन्, अष्टार-

चक०

अ) 'आमलमुकये' इति निता. 'मलत्रिमुकये' इति अच्चा. च पा. इ यनि. शोधः द्र.। b) तत्त्ववि० इति

निता.। c) गण्, (४१३६) 'आत्मादि-> -दि, आवरण-> -णम्' इत्येवं शोधः द्र.। d) =आत्मन्-। e) 'च नित्याः'

इति निता., अच्चा इ यनि. शोधः द्र. (तु. तात्रि.)।

आघन्त-वत्- अन्^०
 †आघ(दि-अ)र्ण- ततद्^०
 आ-देय- हेय^०
 आ-दाह^१-
 √आदाहि^१, आदाह्ये^१ छां ६,
 १९,३.
 आदिक- आ/दा(दाने) द्र.
 आ/दिस्य>आ-दिष्ट- पूर्व^०
 आ-देश- अहंकार^०, आत्मन्^०
 आ/दृ>आ-दर- अन्^०, ६स^०
 †आदर-पूर्वक- अति^०
 †आ-दृश्य अन्^०
 आ/दृश>आ-दश- चित्त^०, प्रति-
 न^०
 †आ/द्युत्>द्योति>आ-द्योतित-
 वर्ध^०
 आ/दृ>†आ-द्वय- तद्^०
 आ/घा,आघत्ताम् दृ ६,४,२१९^६.
 आ-धान- गर्भ^०, ६स^०
 आ-धि- दुर^०, निर^०
 †आधि-व्याधि- सर्व^०
 आ-धेय,या- अन्^०, २आधार^०
 आ-हित- एक^०
 आहिता(ति-व्य)ग्नि- अन्^०
 †आधानकरण^० २प्र ३५:१५.
 †आघार>र^१-
 आ/घृ> २आ-धार,रा^१- अखिल^०,
 अन्^०, अशेषकल्प^०, अशेषसं-
 स्कार^०, आकाश^०, आत्मन्^०,
 इन्द्रना^१...न्^०, २कुल^०, कौपीन^०,
 चूर्ण^०, जगत्^०, तोय^०, १त्रिगुण^०,
 नाद^०, निर^०, पुण^०, प्रणव^०,
 प्रपथ^०, प्राद्वरण^०, भिक्षा^०, २भुव-
 न^०, भोजन^०, सुख्य^०, १मूल^०,
 वर्ति^०, १विश्व^०, १पृ^०, पोडार^०,
 ६स^०, सत्त्व^०, समग्राम्यगुण^०,
 सर्व^०, सर्वप्रथ^०, स्व^०

†आधार-भूत- जगत्^०, जीवन^०
 †आ-धारिन्- अखिल^०
 अ.त- √अन्(प्राणने) द्र.
 †आनक^१- पणव^०
 आनन^१- अग्नि^०, अनेक^०, १कमल^०,
 कुन्देन्दुमण्डल^०, घोरघोर^०, नदृ^०,
 चन्द्र^०, ज्योत्स्नाराजमान^०, ३ना-
 ग^०, पत्न^०, प्रसव^०, ३वर^०,
 व्यात^०, शतचन्द्रनिभ^०, शशि-
 निभ^०, पृ^०, स्मितसं...खन्^०
 †आनन-कर- घट्ट^०
 †आनन-शिरो-ग्रीव- सर्व^०
 आ/नन्द>निद>आ-नन्द- न्दम्
 पाशु २, ३०^१; वरा २, १७.
 [०न्द- अकृत्रिम^०, अखण्ड^०,
 अखण्डैकरस^०, अगणित^०, अति^०,
 अद्वैत^०, अद्भुत^०, अद्वय^०,
 अद्वितीय^०, अन्^०, अनन्त^०,
 अनसूया^०, अन्य^०, अपरिच्छि-
 द्ध...ध^०, अमित^०, आत्मन्^०,
 आत्मसमान^०, आमोद^०, १उदित^०,
 उद्वेग^०, कैवल्य^०, १कोटि^०, गलित^०
 १चित्^०, १चित्^०, २चित्^०,
 चित्त^०, चिद्वन^०, चिन्मय^०, ज्ञान^०,
 तन्मयउल्लोक^०, दिव्य^०, नाद^०,
 नानालीला...त^०, निज^०, १नि-
 ल्य^०, १नित्य^०, नित्यली...न^०,
 निर^०, निरतिशय^०, निरन्तरनि-
 रु...न^०, निरन्तरातिदु...य^०,
 निरशङ्क^०, पर^०, परब्रह्मन्^०, परम^०,
 परमकैवल्य^०, परा^०, परिपूर्ण^०,
 पूर्ण^०, प्रत्यच्^०, प्रत्यय^०, प्राप्त^०,
 प्रेमन्^०, धोष^०, १ब्रह्मन्^०, ब्रह्मा-
 नन्दशिव^०, २भक्त^०, भजन^०,
 भजनप्रेमन्^०, भूमन्^०, मनन^०,
 १मनन्^०, महत्^०, मुख्य^०, १मोक्ष^०,
 २योग^०, रतिदायकमुक्त^०, रति-

प्रेमन्^०, रतिरसमुक्त^०, रमण^०,
 रस^०, रसरमण^०, रसिक^०, रौद्र^०,
 लक्ष्मणप्राणप्रतिष्ठा^०, वचन^०,
 वाचामगोचर^०, १विज्ञान^०, वि-
 तर्क^०, विद्या^०, विषय^०, शाश्वत^०,
 १शिव^०, शुद्ध^०, शुद्ध^०, शुद्धवि-
 ...स^०, शुद्धबोध^०, शुद्धसंविन्मय^०,
 ६स^०, १सत्^०, १सत्^०, १सत्^०,
 १सत्^०, १सत्^०, सदा^०, सन्मात्र^०, १स-
 म^०, समृद्धि^०, संपूर्ण^०, सर्व^०, सर्व-
 सु...र्ण^०, सहज^०, सुखकोटि^०,
 १सुरत^०, स्व^०, स्वप्रकाश^०, १स्व-
 रूप^०, स्वर्ग^०, स्वल्प^०, स्वात्मन्^०
 †आनन्द-कला- विरार^१, १,
 ६स^०
 आनन्द-क्रिया- अमृतकलोल^०
 आनन्द-धन- १सत्^०
 †आनन्द-चित्त-सागर- अनन्त^०
 †आनन्द-तुलसी-मादय-
 अनन्त^०
 आनन्द-दायक- अति^०
 आनन्द-दायिन्- जगत्^०
 †आनन्द-यत्र- अनन्त^०
 †आनन्द-पर्वत- अनन्त^०,
 क्रीडा^०
 †आनन्दपर्वत-शिवर- अ-
 नन्त^०
 †आनन्द-पुष्प- १दिव्यगन्ध^०
 †आनन्द-प्रवाह- अनन्त^०
 †आनन्द-प्राकार- अनन्तसहस्र^०
 सहस्र^०
 †आनन्द-प्रह्वन्- वाचामगो-
 चर^०
 आनन्द-मम- अत्यन्त^०
 आनन्द-मय- लक्ष्मण^०, १नि-
 त्य^०, निरतिशय^०
 †आनन्द-मूर्ति- शिष्यधर्म^०

a) वत्. (=दाहयुक्त-). b) नाधा. c) 'दाहैत' इति पठे. (तु. रामा.) d) प्र १०, १८४, २।
 e) पा. 'नदासुमदानकरणौ' इति द्योषः द्र. (तु. गोमा १, १, २७)। f) मय्. (पृ १४३) यनि. संख्यानदिशः द्र.।
 g) स्युः।

+आनन्द-योग- अतिरसरमण^०
 आनन्द-रस- पारावार^०, प्रप्र-
 तेजोग्य^०
 आनन्द-रूप- अति^०, आनन्द-
 रमण^०, चिन्मय^०
 +आनन्द-लक्षण- आरचय-
 सागर^०
 आनन्द-वन- मयुरावन^०, या-
 चामगो...य^०
 आनन्द-विग्रह- चिन्...भूत^०
 +आनन्द-विभूति- दिव्य-ते-
 जः-पर्वत- अनन्त^०
 +आनन्द-विमान- अनन्त^०
 +आनन्द-विशेष- अपरिमित^०
 आनन्द-समुद्र- अनन्त^०, अप-
 रिमित^०, असंख्याक^०
 +आनन्द-संभोग- अनन्त^०
 +आनन्द-सागर- अपरिच्छिन्न^०
 परम...ज्ञ^०
 +आनन्द-सौदामि(म)नी-
 अनन्त^०
 +आनन्द-स्वानुभव(व-ए)क-
 पूर्ण-हृदय- सर्वदा^०
 +आनन्दा(न्द-अ)चल-श्रेणि-
 अनन्त...त्^०
 +आनन्दा(न्द-अ)नुभव- सदा^०
 +आनन्दा(न्द-अ)मृत-दिव्य-
 मङ्गल-विमान- अनन्तप्रकार^०
 +आनन्दा(न्द-अ)म्बुधि- वाचा-
 मगो...न^०
 +आनन्दा(न्द-अ)श्रय-सागर-
 अनन्त^०
 +आनन्दा(न्द-अ)श्रु- १ब्रह्मन्^०
 आनन्दित- १वित्^०, तृप्त^०
 आ-नन्दयितव्य- अन्^०
 आनयितव्य- √अन्(प्राणने) द्र.
 ?आनीय^० ऊ ६३: ४.
 +आनुगुण्य- गण्. ४.११९ द्र.
 +आन्तरालिक- गण्. ४.१०२ द्र.

√आप्, > २भावि, ईप्स् अनुप्र^०, अनु-
 वि^०, अभि^०, अभिप्र^०, अभिवि^०,
 अव^०, उप^०, परि^०, परिप्र^०, परि-
 सम्^०, प्र^०, वि^०, संवि^०, सम्^०,
 समनुप्र^०, समव^०, संप्र^०
 +आप- दुष्प्र^०
 +१आपक- प्र^०, वि^०
 आपन- प्र^०; वि^०
 +१आपयत्- वि^०
 +आपयितव्य- सम्^०
 +आपयित्वा प्र^०
 +१आपित- प्र^०
 +आपित्- वि^०
 आपस- अनुप्र^०, अनुवि^०, अभिवि^०,
 अव^०, परि^०, परिप्र^०, परिसम्^०,
 १पुत्र^०, प्र^०, वि^०, संवि^०, सम्^०,
 समनुप्र^०, संप्र^०
 आप्त-तम- नम् वृत् १९६: १४
 आप्तवत्- अव^०, प्र^०
 आप्तव्य- अव^०, प्र^०
 २आप्ति- अनन्तलोक^०, अभीष्ट^०,
 अव^०, गर्भ^०, १चिन्^०, तद्^०, प्र^०,
 वि^०, संप्र^०, सर्व^०
 आप्तुम् अव^०, प्र^०
 +आप्तुवत्- अन्^०, प्र^०, वि^०
 आप्य अनुप्र^०, अभिवि^०, अव^०,
 परिसम्^०, प्र^०, वि^०, संवि^०, सम्^०,
 समनुप्र^०, संप्र^०
 आप्य- प्र^०, हेय^०
 +आप्यमान- वि^०
 +ईप्स्- देशकाल...च^०
 ईप्सित- अन्^०, अभि^०, निद्र^०,
 १मनत्^०, यया^०, २सुर^०, स्व^०
 +ईप्सित-फल- सर्व^०
 +ईप्सित्- अभि^०
 +ईप्सु- अभि^०, अभिप्र^०, १काम^०
 १आपक- √आप् द्र.
 २आपक- √इ (अध्ययने) द्र.
 आ/पद् > +आ-पत्ति- अवशिेष^०,

आत्मन्^०, तदाकर^०, तद्भाव^०,
 त्रिविधविरोध^०, भोक्तृ^०, लोक^०,
 विजातीयद्वैत^०, रात्र^०, रात्रव^०,
 रामानधर्म^०, साभाव्य^०
 भा-पद्- अन्^०, उप्र^०, परम^०, महत्^०
 सर्व^०
 भा-पद्, घा- अन्^०, १एकभाव^०,
 तद्धान^०, तद्भाव^०, ध्यान^०, पूर्व^०,
 प्रतिचिन्म्यभाव^०, प्रत्यय^०, १भाव^०,
 भोज्य^०, मनोभाव^०, रतिरस...न^०,
 चिनयभाव^०, विस्मय^०, मन्थ्यान^०,
 धीराधाधान^०, संसय^०, सुपुण्य-
 वस्था^०
 +भा-पाद- ध्यान^०
 +भा-पादक- समस्ताविद्या^०
 +भा-पादन- चतुर्विंशतितरव^०
 १आपयत्- √आप् द्र.
 २आपयत्- √इ (अध्ययने) द्र.
 आपराहिक- अपर- द्र.
 +आ/पा(पाने) > आ-पान- आहार^०
 +आ-पाण्डुर- वि^०
 १आपित- √आप् द्र.
 २आपित- √इ (अध्ययने) द्र.
 आ/पीद् > +आ-पीड- कुवलय^०,
 वर्द्ध^०
 आ/पृ > पुर > +आ-पूर- प्रकृति^०
 आ-पूरित- दिग्^०
 +आपूरित- दिग्-भर- रः अन्न
 ४, ६७.
 आ/प्यै, > प्यायि, आप्यायस्व कौ
 २, ५.
 +आ-प्याय- अमृत^०
 २आ-प्यायन- सर्व^०
 आ/वन्ध > आ-बद्ध- रत्नौष^०
 आ/मा > +आ-भ, भा- अन्न^०, अर्धसुप्त-
 प्रवृद्ध^०, इन्द्रनीलवर्ण^०, उदात्को...र^०
 उद्यद्वास्त्वसम^०, तडित^०, तडित्क-
 ट^०, ततकार्तस्वर^०, तदण्दिवाकर^०,
 नीरव^०, नीहार...र, पूरणचन्द्र^०,

a) पा १। b) निसा. अपा.। c) ध्यान, अन्धाः सा. अपा।

मदलशब्द°, मूलाधिष्ठित्वशेष°,
 मेघ°, मूपास्थदुतेहमन्°, यन्म-
 ...त°, रत्नगौर°, रत्नम°, विमला-
 म्बर°, शङ्खकु...र्ण°, शिला°,
 शिरण°, शशुक°, शुभ्राभ्र° सिद्ध°
 सुवर्ण°, सूक्ष्म°, सुस्य°, स्वप्न°,
 स्वर्ण°, स्वर्णवर्ण°, हेमन्°, हेम-
 रेखा°

आ/भास्> भा-भास- भन्°, अर्थ°,
 अशेष°, ऋजुवकादिक°, १केवल°
 प्रहणप्राहक°, १चल°, १चित्°,
 जगत्°, १जाति°, तत्तत्तार्थिक°,
 दर्शनप्रत्यय°, दर्शनप्रथम°, द्वय°,
 निर°, निर्विकल्पचित्°, १प्राहाण°,
 रत्नोत्पल°, वस्तु°, विद्युत्°, शम-
 सम°, शरीर°, समरस°, सर्व°,
 सर्वेन्द्रियगुण°, स्व°

+आभास-विनिर्गम- सर्प°

+आ-भास्- १चित्°

+आ/भुज्> भा-भोग- १भोग°,
 शमसम°

आ/भृ> भा-भरण- अलंकार...
 दि°, किरिट°, तप्तहाटक°, दिव्य°,
 १नाग°, नाना°, नासा°, परि-
 व्राजक°, मकुट°, मौक्तिकादि°,
 रुद्राक्ष°, वस्त्र°, सर्व°

+आ/मद्> भा-मद- मद°

आ/मन्> +आ-ममन- इयत्°,
 तद्°, विकल्प°

आमय- भन्°, तृष्णादोष°, दु.ख°,
 निद्र°, विगत°, तप°

आमलक- रकर°, करतल°

+आमलक-भृन्- भ्रौञ्ज...ल°

+आमिन्- मन्त्र°

आ/मुद्> भा-मोद- मदिरा°, ६स°,
 संतोष°

आ/ञ्ज> +आ-ञ्जान- भन्°, उभय°
 आ-ञ्जाय- भात्मन्°, उत्तर°, ऊर्ध्व°,
 चतुर°, रदक्षिण°, प्रक्षिप्त°, पूर्व°

आभ्र- किञ्चक°, सर्पण°

+आ/भ्रेड्> भा-भ्रेडन- मन्त्र°

आय° राष्ट्र ४, १.

१आय- √अय् (परि.) द्र.

२आय-आयक- √इ(अभ्ययने) द्र.

आ/यत्> भा-यतन- तीर्थ°, १देव°,
 दुग्ध्वादि°, २पुण्य°, १पुण्य°,
 १ब्रह्मन्°, भोक्तृभोग°, १भोग°,
 यथा°, रोग°, १शिव°, शिवामि°,
 १सत्°

आ-यत्त- चतुस्°, निप्रह°, पर...
 न्त्र°, स्व°

आ/यम्(द्वैत्ये)> १आ-यत्- उच्च°,
 उत्तेष°, चतुर्वोजन°, द्विगुण°,
 पञ्चयोजन°, पञ्चविंशतियोजन°,
 पञ्चविंशद्योजन°, २योजन°, लोक°,
 शतयोजन°, षण्णवत्यङ्गुल°,
 सहस्रयोजन°

+आयतो(त-उ)ञ्जत- सहस्रकोटि-
 योजन°

आ-यति- प्रजा°

आ-याम- अनिल°, प्राण°

आयाम-विस्वार- १जिह्वस्त°

आ/यम्(यगने)> २आ-यत्->

आयत्-प्राण- णः जु ५।°

आ/यस्> भा-यास- भन्°, १वन्प°
 बहुल°, यमायासनज°, शोक°

आ/या> भा° वाति वध ३७:७५।

आ-याव- यात°

आयिन्- √अय् (परि.) द्र.

+१आयु- दीर्घ°

२आयु- √इ(गती) द्र.

आ/युध्> भा-युध- अनेक°, उद्°,

गदादि°, तद्°, दिव्य°, दिव्यानि-
 कोद्यत°, धनुःसङ्घ°, भस्मन्°,
 विपण°, ६स°, सर्व°

+आयुध-चतुष्टय- ६स°

आयुस्- अघ°, अल्प°, २जाति°, दीर्घ°,
 वर्षसहस्र°, १विरव°, शत°, सर्व°

+आयुः-प्रमाण- परम°

+आयुष- त्रि°, यावत्°

१आयुष्य- न्यम् नाप ४, ३८५।
 [°व- चिर°, दीर्घ°]

२आ(आ/अ)रु(हिंसायाम्)> भा-
 (आ-अ)रु, र्ता- भन्°, कतत्र-
 चिन्ता°, १जुषा°, रोग°, शोक°

आ(आ-अ)रुति- २भक्त°, संसार°,
 स्वामिन्°

+आरुति-ह- हम् सु २, २, ७२.

१-२आर- गृ. ५।५१ द्र.

३आर- द्विपत्°

आ-रक्त- २हरित°

आरग्यक- २अर्थ- (परि.) द्र.

आ/रम्, रम्(आरम्भे)> भा-रम्भ-
 भन्°, यथा°

आ-रम्भ- भन्°, ३कल्प°, निद्र°,
 पाय°, विशेष°, शिवधर्ममत°, सर्व°

आ-रम्भक- देह°

१आ-रम्भण- भन्°

+आ/रम्, रम्(शब्दे)> २आ-
 रम्भण- वाचा°

आ/रम्> +आ-रत्- भन्°

आ-राम- अनन्त...र्थ°, भन्तर्°,
 आत्मन्°, इन्द्रिय°, एक°, तद्°,
 दिव्य°, पितृ°, पुण्य°, प्राण°,
 स्वात्मन्°

आ/राध्> भा-राधन- एतद्-
 मन्त्र°, तदीय°, पितृ...ह°, १म-
 द्मन्°, १राम°, १ष्ट°

a) व्यु. ३=मांस-। b) '१राम-> माय' इत्यस्योत्तराः द्र. (वैतु. निघा. 'माया->या' इति)।
 c) 'गतः प्राणः' इति पा. (तु. निसा., ध्यान.) यति. शोषः द्र. (तु. ब्रह्मा.)। d) ष्ट १, २५, २। e) वै १ य.।
 =आयुग्-। f) गृ. (५।५१) पाठ २, २, ११ इत्येवं शोषः द्र.। g) गृ. (५।५२) यति. संख्यानिर्देशः द्र.।
 h) तु. टि. वा पारम्भण- [वैतु. सं. प्र. <आ/रम्भ(आरम्भे) इति]। i) भाप. वा नाप. वा।

आ-राधित- ३शुवन°
 आ-राष्य- सर्व°
 आरिष्ट- अरिष्ट- (परि.) द्र.
 आरुषि- अरुष- (परि.) द्र.
 आ/रुह्, >रोषि> आ-रुह, टा-
 अस्व°, ऐरायत°, कर्तृत्व...व°,
 १कर्म°, गदड°, गोत्रा°, तन्मुद्रा°,
 नर°, १पद्म°, पद्मासन°, १पवन°,
 प्राण°, प्रह्लाणन्दरता°, मकर°,
 २महिष°, मृग°, १मेघ°, यन्त्र°,
 २योग°, रथ°, रैक°, वीरारण°,
 शृगभ°, पदस्वर°, १षोडशमात्रा°,
 सिंह°, हंस°
 *आ-रोपण- पुनर्°
 आ-रोषित- अन्य°
 *आ-रोष्य- २हस्त°
 आ-रोहण- वृक्ष°
 भार्द्र- भन्°
 *भार्द्र-तरव- पघन्°
 *भार्द्रक- गुड°
 आर्य- भन्°
 *आ/लक्ष्> आ-लक्षित- वज्रपक्ष°
 आ/लप्, >लापि> आ-लाप-
 १कथा°, तद्°, २दर्शन°, २दर्श-
 न°, डुर°, श्या°, संबन्ध°
 *आ-लापन- तदर्थ°
 आ/लभ् > *आ-लभन- २रोचना°
 आ/लभ्य् > *आ-लभ्य- -भ्यम् मै
 ४, ११?° [°म्ब- निर्°, वस्तु-
 दशा°, ६स°]
 २आ-लम्ब- गप्, ५१५३ द्र.
 आ-लम्बन- अभावप्रत्यय°, तद्°,
 निर्°, प्रतीक°, मण्डलादि°, ६स°,
 स्वप्ननिद्राज्ञान°, १हेतु°
 *आ-लम्बिन्- सर्वातीतपद्°
 आलचाल- रत्न°, सुवर्ण°
 आ/ला > *आ-ल- अन्तर्°
 *आलि, ली- हुदियादि...द°, द्विज°
 आ/लिङ् > आ-लिङ्गन- परस्त्री°

प्रेमन्°
 आ-लिकित- २महालक्ष्मी°, लक्ष्मी°
 आ/सिप् > *आ-लेप- चन्दन°
 *आ-लेपन- अर्तव°
 आ/सी > आ-लय- १कमल°, फाग-
 कला°, कामपीठ°, कुन्तल°,
 १कृष्ण°, चन्द्र...मन्°, जालंधरपीठ°
 तिमिर°, दुःख°, १देव°, देवता°,
 १पद्म°, परम°, १मङ्गल°, महत्°,
 १वर्ण°, विष्णु°, १राव°, सुय-
 दुःख°, स्व°, स्वच्छन्दगमन°,
 हिम°
 आ/लोक > आ-लोक- ज्ञान°,
 २तारक°, निर्°, पर°, प्रज्ञा°,
 प्रशुक्ति°, विद्या°, १सूय°, स्व°
 आ-लोकन- १राम°, १शिव°, राम्यच्°
 *आ-लोकित- -ते अक्ष २, ३, ८.
 *आ/वद् > भो(आ-उ)दित- तद्°
 आ/वल् > आ-वलित- पद्मरा...ख°
 *आवलि, ली- अनन्तधूर्तदीप°,
 अनन्तर...तरङ्ग°, आनन्दम...
 न°, एक°, चन्द्र°, जगत्°, १जाल°,
 ज्वाला°, पुण्यहार°, प्राकार...न°,
 २मुक्ता°, रत्न°, रत्न°, विमान°, वीर°,
 शिवध...म°, शुद्धबोधविमान°,
 शुद्धबोधसौध°, हार°, हीरक°
 आयली(क)- २मुक्ता°
 आ/वस(निवासे) > आ-वसथ-
 १खेचर°, योगीन्द्र°
 *आवसथ्य- सम्भ°
 *आ-वास- कैलासशिखर°, भूत°
 आ/वह्(वहने), >वाहि > *आ-
 वह- धमे°, १भय°, शोक°,
 संसारदुःख°, सर्वकामसुख°, सर्व-
 कालसुख°
 आ-वाहन- ध्यान°
 आ/विद्, > वैश, आविषेदा मउ
 ९, ४५?; अशि ६, ३५?°
 आ-विष्ट, टा- अहंकार°, ईश्वर°,

पुम्भक°, १२पा°, फीतुक°,
 रामन्°, नानाकीतुक°, निजुञ्ज-
 केंतिकीतुक°, मद्°, १रति°, रस°,
 विस्मय°, संशय°, स्नेह°
 आ-वेदा- आनन्द°, १पाम°, कोम-
 लाङ्कुर°, जीव...वासना°, तद्°,
 परशारि°, १पुत्र्य°, पुण्य°, १फल°
 मदन°, रस°, २वासना°, ६स°,
 स्व°, स्वरूपस्यामिनी°, स्वानुभू-
 तिरस°, हेतुकल°
 आ-वेदित- तन्मुगन्ध°
 आविस्- > आविर्/भू > *आविर्-
 भव- आनन्द°
 आविर्-भाव- अतिशय°, आ-
 त्मन्°, आनन्द°, १ओंकार°, तद्°
 तद्भोग°, नानाली...न्द°, नि-
 त्यवि...ला°, १निरतिशयानन्द°,
 परमात्मन्°, बुद्धिविज्ञान°, भक्त-
 यात्सल्य°, १मूला°, मूलका...ह°,
 मूलाविद्या°, विद्या°, १प्रज°, सर्व-
 रूप°, स्व°
 आविर्भाव-तिरोभाव-
 जगत्°
 *आविर्भाव-प्राहुर्भाव-
 १रूप°
 आविर्-भूत- चित्तार°, चिन्म-
 थन°, जलवन्त्रमुख°
 आविष्/ह > *आविष्-कुर्वद्-
 अन्°
 आ/ष्ट(आच्छादने) > आ-वरण-
 -णम् रार ३, १?° [°ण-
 अलक्ष्य°, अविद्या°, अष्टन्°,
 अष्टाक्षरंशं, एकैक°, चतुर्थ°,
 तृतीय°, दशन्°, द्वितीय°, नैवेद्य-
 पीठ°, पथम°, प्रकाश°, प्रथम°,
 ब्रह्माण्ड°, मण्डल°, ६स°, संसा-
 र°, सप्तम°, सु°]
 *आवरण(क)- सप्तन°
 *आवरण-पूजा- यन्त्र°

४) व्यु. ? । ५) हु. गप्, ५५९०। ६) = अग्निविशेष- । ७) कर्तारि कृत् । ८) म् ८, ३६ । ९) शौ ७, १२, १ ।

*आवरण-मल- सर्वे
 आवरण-शक्ति- ईशाधिष्ठित°,
 विक्षेपशक्ति°
 *आ-वार- घुवादि°
 आ-वृत्- -तः अह २१५°. [°त-
 अहान°, अन्°, उल्व°, त्रिस्°,
 संशमशक°, पुरयनल°, मुनि-
 गण°, व्याप्रत्वच्°, शब्दमाया°,
 योडशकला°]
 आ-वृत्ति- -तिः सौ १, ३. [°ति-
 विक्षेप°]
 आ/वृत्, ओ...वृत्त्याम् २संन्या
 १७: १५°.
 आ-वर्त- कान्तिविशेष° शुद्ध°, तृण°,
 तृष्णा°, नासाप्रगमन°, पयन्°,
 १प्रद्वन्°, २वाम°
 आ-वर्तन- अक्षार°, पुनर्°, प्रणव°,
 सहस्र°
 *आवर्तन-क्रम- -मेण अच् २.
 *आ-वर्तमान-°
 *आ-वर्तिन्- अयङ्कृत°, पुनर्°
 आ-वृष्- २दक्षिणा°, स्थालीपाक°
 आ-वृष- त्रिस्°
 आ-वृत्ति- अन्°, दिस्° पञ्चकिया°,
 १पुरय°, पुनर्°, मन्त्र°, विष्णु-
 मन्त्र°
 आ/वे > ओ(आ-उ)त- -तः मना १,
 ३५°.
 आ/वेष्ट > आ-वेष्टित- कुच°
 *आ/व्ये > वी > आ-वीव- अङ्-
 वा...वि°, गोप...व°, प्राचीन°
 *आश(दृच्छायाम्) गप्, ५१५६० द.
 आश- /अश् (व्याप्तौ) द.
 आशक- , आशयित्वा /अश्
 (भोजने) द.
 आशा- अणिमायष्टैश्वर्य°, दादिप°,
 इर्°, निर्°, ब्रह्मादीश्वर्य°, १मात्°

१भोग°, १भोष°, विषय°, संकल्प°
 सर्वे°
 *आशा-दशा- विषय°
 २आशा- अष्टन्°, चतुर्°, वि°
 *आशा(शा-अ)न्त- भा°
 आ/शास् > शित् > *आ-शित्-
 तिर्°
 आ-शित्- निर्°, मन्त्र°, १वज्र°
 आशिन्- /अश् (भोजने) द.
 आशिष्ठ- आशु- द.
 आ/शी > आ-शाय- अन्°, अपगत°,
 अविद्यमा...ख°, उत्तम°, कर्मन्°,
 क्लेश°, २जल°, देवसंदिपित°,
 रस°, विगत°, विशद°, शीतल°,
 सर्वभूत°
 *आशीविष- विषय°
 आश्रय- अति°, अद्भुत°, आनन्द°,
 सर्वे°
 *आश्रय-आल- कल्पित°
 *आश्रय-सागर- अनन्त°
 आ/श्रम् > आ-श्रम- अति°, अन्°,
 अन्य°, २कुल°, कैवल्य°, श्व°,
 चतुर्थ°, तापस°, तीर्थ°, सुरीय°,
 १देव°, परम°, परमहंस°, परहंस°,
 पुष्य°, बदरिका°, ब्रह्मचर्य°,
 १मोक्ष°, ३वर्ग°, वानप्रस्थ°,
 वृद्ध°, १शिव°, शिवग्रह°, समु-
 दस्त°, सर्वे°, स्व°
 *आश्रमा(म-आ)वार-विद्या-धर्म-
 पूर्वापेक्ष°
 आ/श्रि > आ-श्रय- लन्°, अनन्य°,
 अन्योन्य°, अभिभव°, अल्प°,
 अविद्या°, आश्रयिन्°, क्रियाकल°,
 गुणत्रय°, १चिन्°, तद्°, १तद-
 धिष्ठान°, तीर्थायतन°, नागा°,
 निर्द°, निरुद्धकरण°, प्रकाश°,
 प्रतिप्रतिगुण°, बहुदोष°, विन्दु-

नादकला°, ब्रह्मसङ्घ°, मन्त्र°,
 मन्त्र°, यथा°, शब्द°, १शिव°,
 पृष्°, ६स°, सर्वभूतगृह°, सुख-
 दुःखबुद्धि°, सुदुर्मतल°, स्वा-
 धिष्ठान°, १हेतु°
 आश्रयिन्- आत्मन्°, १करण°,
 कार्य°, २सह°
 *आ-श्रयण- गुह्यानिवात°
 आ-श्रित, ता- अन्°, अपृ°, २उपा-
 सना°, कल्पदुग्म°, गूढधर्म°, जीवि°,
 बुद्धिज्ञान°, १भाव°, वीणादरङ्ग°,
 वैवुरल°, स्वाहा°
 आ/श्रु > श्, *आ...श्रुहि मना १,
 ११५°.
 आ/श्रित् > *आ-श्रित्- सिद्धि-
 बुद्धुभय°
 *आ-श्व-चरङ्गाल-भो-खल-°-
 आश्वस्- /अश्(भोजने) द.
 आष्टि-, आष्टि-ह- /अश् (व्याप्तौ) द.
 /आस् अभि°, उद्°, उप°, पुरुप°,
 सम्°, समुप°
 *आसक- उप°
 *आसव- उप°
 आसन- -नम् शि ६, २१२. [°न-
 अनन्त°, आत्मन्°, अमोदा-
 नन्द°, उप°, १कया°, १कमल°,
 कुक्कुट°, १चक्र°, विन्मय°,
 चिन्मयानन्द°, जित°, १विद्-
 रङ्ग°, २दम्°, दिव्य°, १दत्त°,
 पतुस्°, २भारणा°, पद्मज°, १पद्म°
 पपादि°, परममङ्गल°, पाय°,
 पुष्पलता°, पूर्वोक्त°, २भद्र°,
 मङ्गल°, मन्त्र°, २मयूर°, मात्रोप-
 करण°, १सुकु°, सुदु°, २यम°,
 यमादि°, २योग°, २ख°, १वज्र°,
 वस्त्र°, विभ्रम°, विहार°, वीर°,
 व्याघ्रचर्मन्°, शय्या°, शव°,

अ) शौ १०, ३, ३१। ब) ऋ १०, १०, १। c) गप्, (५१५५) प्राति. कनि. शोषः द। d) मा ३२, ८।
 e) व्यु. ३ = सर्वे - १। ऋ १०, ५५, ५। g) गप्, (५१११) अश्वत्थाल- इत्यत्र यनि. सोभ. द। h) भावे करणे वा
 ह्युद्। गप्, (५१५८) यनि. संख्यानिर्देशः द.। i) 'सकः' इति मैत्रि ४, २।

शेषभोग, संतोपसुर, सिंह, सिद्ध, मुक्त, स्व, ररवास्तिक, स्वस्तिकादि°]
 +आसन-भेद- संवद्ध°
 +२आस(न)ना- उप°
 +आसमान- उप°
 आसा- उप°
 +आ(सक)सिका- ६स°
 +आसित- अधि°, उप°, समुप°
 +आसितव्य- उप°
 +आसिखा उप°
 आसीन- उद्°, उप°, कैलासशिखर°, पद्मसिं...न°, पद्मासन°, वृन्दावन...ल°, वीरासन°, शिलाशय्यासन°, मम्°, मुख°, छदया- म्बुसह°
 +आसित- उप°
 +आस्य उप°
 +आस्य- उप°
 +आस्यमान- उप°
 आस- √अस् (क्षेपणे) द.
 आ/सञ्ज्>आ-सक्-कः मै४, २°.
 [°क- अति°, अत्यन्त°, अन्य°, अन्यधर्म°, अव्यक्त°, कथाकौतूहल°, क्रीडा°, ज्ञानु°, १हृ°, नाद°, निरन्तरसङ्कीर्ण°, १पु४१°, प्रवृत्ति- मार्ग°, प्रेमन°, ब्रह्माभ्युत्थस°, योषित°, वनलीला°, विषय°, शाखा°, र्नेह°]
 आ-सक्ति- अन्य°, मसङ्ग°, १रूप°
 +आ-सङ्ग- उत्तर°, कर्मफल°, विषय°, विषयाशीविष°, श्रेष्ठ°
 आ/सद्>सीद्, मादि, आ...सीद् वृ १, ५, ११°
 आ-सङ्घ- गृह°, १शिव°
 +आसङ्घ-काल- उल्लमण°
 +आ-सादन- पात्र°

आसन्- -सन् वा ८; -चि मैत्रि ६, ३६°.
 १-२आसन- √आस् द.
 +३आसन- १हृद्°
 आसम् √अस् (क्षेपणे) द.
 आ/सिच्, स्य्, आसिपिक्त कौ १, २!°.
 आसिद्यते इ १२:२०; आसि- अमु ५ ६, ४, २११!°
 आसिन्- √अस् (क्षेपणे) द.
 आस्तिक्य- √अस् (भुवि) द.
 आ/स्त् स्तु>स्तु> +आ-स्तर-पत्र°
 आ-स्तरण- नाना°
 +आ-स्वत- भस्मन्°
 आ/स्था>आ-स्थ, स्या- अन्°, अन्तर°, इत°, १वन्ध°, १मोक्ष°, सदसत्°
 आस्पद्- देश...या°, निर्°, परप्रेमन्°, बाल्या...न°, मनन°, मनःपट्टेन्द्रिय°, शिवराक्षिपद्°, सर्वप्रेमन्°
 आ/स्फ(र)ल्>स्फालि> +आ-स्फालन- कालद्वय°
 +आ/स्फुद्>आ-स्फोट- हास्य°
 आस्य- कराल°, कुहृ°, ६दक्षिणा°, दशन°, २पत्रा°, लीन°, संश्रुत°
 आ/स्वद्>स्वादि>आ-स्वाद- अनेकरस°, स्वाद्य...स°, प्रतिम°, ब्रह्माभ्युत्थस°, मस्तक...त°, रस°, +आ-स्वादन- प्रतिवि...ल°, रस°, सदानन्दरस°
 आ-स्वादित- राधा°
 √आह् अणु°, प्र°, प्रति°
 आ/हन्> +आ-घात- १ज्वलन°, दुन्दुभि°, २पवन°, वायु°
 आ-हत- अन्°, दसह°
 आ/हु>आ-हवन->आहवनी- य... गार्हपत्य°

आ-हुति- -सीः नाप ४, ३८. [°ति- अमृत°, २आज्य°, चन्दन°, पूण°, सर्व°]
 आ/ह्>आ-हरण- २वेद°
 आ-हार- अति°, अन्°, अल्प°, चतुर्थ...र°, चतुर्विध°, जित°, त्रिदश°, नियत°, निर्°, पान°, पायस°, प्रविकृत°, १फल°, फल- पत्रोदक°, मित°, यत°, याचित°, योगविप्रकर°, लघु°, १वधन°, द्रोतोष्ण°, मुद्रिग्धमधुर°
 +आहार-पाय- भैषज्य°
 +आहार-विहार- युक्त°
 +आ-हारिन्- अक्ष°, गोमूत्रगोमय°
 आ-हृत- अन्°, तद्°
 आ/ह्वाद्>आ-ह्वाद्- अतिशय°, क्वादिचन्द्र°, खेद°
 +आह्वाद्(द-अं)नन्त-प्रवाह- अक्षरगणनन्द°
 +आ-ह्वाद्क- शमित°
 +आ-ह्वादि(न्-अं)नी- सर्व°
 आ/हि>आ-हव- रात°
 +आ-ह्वय- ३राका°, स्वाधिष्ठान°

इ

√इ (गती) अति°, अणु°, अणुसम्°, अणुद्°, अन्तर°, अन्वय°, अप°, अपि°, अभि°, अभिपरि°, अभि- प्र°, अभिसम्°, अभिसमा°, अभ्या°, अभ्युद्°, अव°, अस्तम्°, वा°, उद्°, उदा°, उप°, उपप्र°, उपसम्°, उपसमा°, उपा°, नि°, निर्°, न्या°, परा°, परि°, परिसमा° पर्यव°, पर्या°, परि(त्)लि°, प्र°, प्रति°, प्रत्यव°, प्रत्या°, प्रा°, प्रोद्°, वि°, विपरि°, विपरि(त्)-

a) 'सक्तः' इति मैत्रि ४, २ । b) 'सा...सीद्' इति पा. ? यनि. शोधः द. (तु. ऋ २, २३, १) । c) 'आस्ये' इति सात. । d) = आसन् । e) 'सिपिक्तः' इति निसा. ? यनि. शोधः द. [तु. जैमा १, ५०; वैतु. 'निषिक्त' इति श्रान., अग्ना., 'निषिक्त' इति शांथा (३, २), 'निषिक्त' इति वे.] । f) ऋ १०, १८४, १ g) = अभिविधेय- ।

लि°, व्यति°, व्यप°, व्या°, संवि°,
 सम्°, समति°, समतु°, समव°,
 समा°, समुद्°, समुप°, समोप°,
 संपरा°, संपरि°
 +२आयु- उप°
 +इत्- प्राद्°
 +१इत्- अति°, अनु°, अन्तद्°,
 अपि°, अभिसमा°, अभ्युद्°,
 अस्तम्°, आ°, उद्°, उप°, दुद्°,
 परा°, प्र°, प्रति°, वि°, विपरि°,
 व्यति°, व्यप°, समति°, समतु°,
 समव°, समुद्°, समोप°
 +३इति- अपि°, प्रति°, सम्°
 १इत्य अति°, अभिपरि°, अभिस-
 मा°, अम्भा°, आ°, उदा°, उप°,
 उपरमा°, न्या°, परा°, परि°, परि-
 समा°, पर्या°, प्र°, प्रति°, समति°,
 समा°, संपरि°
 +इत्थन्- हार°
 +इत्था उद्°
 +इय- सम्°
 +१इयमान- प्रति°, समुद्°
 +इयिवस- उप°
 १पृ- अस्तम्°, उद्°, परि°, पुरस्°
 +इय- उप°
 यत्- यतः श्रु २, ३, ३; ५; यन्तः
 अरु ३१५°. [°त्- अनूद्°,
 अव°, अस्तम्°, आ°, उद्°,
 प्र°, प्रोद्°, सम्°, समुद्°, सुवद्°
 +√इ(अप्ययने), > १आपि अपि°
 +२अयन- अपि°
 +२आपक- अपि°
 +आपयत्- अपि°
 +२आपित- अपि°
 २आय- अपि°
 +आयक- अपि°

+२इत्- अधि°
 +२इत्य अधि°
 +इवान- छधि°
 +इत- अधि°
 +२इत्- अधि°
 इत्- चौर°, मोदक°
 इधु-रस- एला°
 इद्वक्- > ऐक्षवाक- -०क मैत्रि
 १, २^b.
 +√इहृत् प्र°
 +इहितवत्- प्र°
 √इहृत् सम्°
 +इहृत्- अन्°
 +इहृत्गुदि- सर्पप°
 √इच्छ, इप् (इच्छायाम्), इच्छति
 मैत्रि ६, ३४^d. [अनु°, अभि°]
 इच्छ, च्छा- अन्°, आत्मावलीक°,
 किम्°, १काम°, गृह...र°,
 तगहोक्, तद्°, देहत्याग°,
 धन°, ध्यान°, निन्दा°, निर्द्°,
 पर°, पृथिवी°, १भोग°, १मोक्ष°
 यथा°, शीत°, शुभ°, संभोग°,
 सर्व°, स्व°
 +इच्छा-जाल- सर्व°
 +इच्छा-भय-क्रोध- विगत°
 इच्छत्- अन्°, अनु°
 +इच्छु- निर्द्°
 १इष्ट- इष्ट सां २८७ : ८. [°ष्ट-
 अन्°, अभि°, मद्°, यथा°, सर्व°,
 स्व°]
 इष्ट-तम- -मम् गोड ३.
 +इष्ट-वियोग- १काम°
 +इष्टा(ष्ट-श्च)दिष्ट-कलन- गष्ट°
 +इष्टा(ष्ट-श्च)भीति-युग्माभ्-
 (ज >)जा- करकमलपृत्°
 १एष(ए >)णा- त्यक्त°, दार°,

धन°, १पुत्र°, लोक°, २वासना°,
 वित°, सक्रत°, सर्व°
 +इष्टणा(ष्ठा-श्च)स्मन्- अन्°
 इष्ट-इष्टान- √यन्(परि.) द.
 इष्टतर- इष्टतर°, जीव°, १दक्षिण°,
 २वाम°, २सव्य°, सुख°, स्व°
 इतर-लक्षण-शु(न्य >)न्या- न्या
 ससा १, ४०^b.
 +इतर-वासना- विगत°
 इ-इति- इदम्- द.
 ३इति- √इ (गती) द.
 इतिहास- आगम°, २वेद°, १धु-
 ति°, ६स°
 इतिहास-पुराण- ६स°
 इत् स्वे ४, २२५^f.
 इदम्- यत्किंचिद्°
 १इति गप्, ५१६४ द.
 २इति अस्मिन्, अहम्, चिचन्द्र-
 मयी°, जीवा...त्मन्°, जीवेवर°,
 देवदर्शिन°, देवर्षि...त्मन्°, भू-
 र्भुवःस्वर°, हंस°
 +इति-संज्ञक- -कं: ता २, १.
 +इति-संज्ञा- > इति संज्ञि-
 (त >)ता- -ता ता २, ४.
 इत्या(ति-श्च)दि- जगत्त्वमहम्°,
 रामपठसूरी°, पहर्मिपद्भाव°
 इंदस- अन्°
 √इध्, न्ध अपि°, सम्°
 इध्- इध् मैत्रि ६, ३५^h; मन्त्रि
 १?। [°द्ध- भमि°, १आरा°]
 +इध्- अपि°
 +इध्- सम्°
 इध्-अन्- अन्°, अन्°, दरय°, निर्द्°
 पत्र°, पलाश°, पातक°, शमी°,
 समिध्°
 +इध्- अर्द्ध°

a) वैश्या १, २७, ५। b) ए° इति सात.। c) व्यु.। d) 'इच्छन्ति' इति सात.। e) यत्रा. द.। इह
 =अभिलाष- , वाडीविशेष-। f) °मः इति ध्यान.। g) गप्. (५१६२) यनि. संक्षयानिर्देशः द.। h) लक्ष° इति
 ध्यान.। i) गप्. (५१६३e) इह इत्यत्र यनि. शोधः द.। j) श्र १, ११४, ८। k) पा.। यनि. शोधः द. (तु. चू.१)।
 l) 'अहम्' इति निता.। यनि. शोधः द. (तु. चू.१)।

इन- अवि^०, १सोम^०

√इन्दु> √इन्दि(०)रा^०- १कम^०,
व्योमन्^०

+इन्दिशा-कला- व्योमन्^०

+इन्दिशा-सुत- आनन्द^०

इन्दु- अर्क^०, अर्ध^०, कुन्द^०, चम्प-
क^०, रजल^०, दीपज्वाला^०,
पूरी^०, १बाल^०, विन्दु^०, मौलि^०,
रवि^०, रेक^०, १शङ्ख^०, १शिव^०,
१सूत^०

ऐन्दव-वेन त्रिता ३, १९०

+इन्दु-चक्र- यात^०

+इन्दु-रवि- अनन्त^०

इन्द्र- ऋदः ऐ ५, ३; मउ २०,

३५; वृष २, १४५; ऋम् मउ

२०, ३५. [०न्द्र- अरुण^०,

उप^०, १कपि^०, गन्^०, चतुस्रुख^०,

दिव्याकर^०, दिशर^०, १देव^०, नग^०,

नर^०, ३नाग^०, निशाकर^०, वृष^०,

पत्तिन्^०, प्रनापति^०, १मदन्^०,

१मदन्^०, २भव^०, भुनग^०,

महत्^०, सुनि^०, मृग^०, २योगिन्^०,

राजन्^०, विप्र^०, शैल^०, ६स^०,

सिद्ध^०, २सुर^०]

इन्द्र-नाल- जगत्^०, तर्क^०

इन्द्र-सुभ्र- सुधुन्न^०

इन्द्र-नील^०- चम्पक^०, महच्छै-
ल^०, १वज्र^०

इन्द्र(न्द्र-श्रा)दि- दि रार ३,

१। [०दि- १अङ्ग^०]

इन्द्रिय- वैः नि २४? [०य-

अखिल^०, अति^०, अन्^०, अन्तर्^०,

अन्तर्बाह्य^०, अन्तर्हित^०, अवि-

कल^०, आत्मन्^०, एकादशन्^०,

कर्माशन^०, कर्मान्^०, काय^०, १केव-

ल^०, चतुरादि^०, चित^०, जित^०

शान^०, शानकर्मन्^०, वृत्त^०, दशन्^०,
देह^०, निद्र^०, पयन्^०, पटु^०, युक्ति^०,
भूत^०, मनःपटु^०, १मनस्^०, यत्^०,
विकल^०, विजित^०, विपय^०,
शरीर^०, ६स^०, संयत^०, सचल^०,
सर्वे^०]

इन्द्रिय-जय- सत्त्वशुद्धि^०

+इन्द्रिय-द्विप्- निष्ठील^०

+इन्द्रिय-ययु- पशुत्वद^०

+इन्द्रिय-मनो-शुद्धि- यत्^०

+इन्द्रिय-मनो-वृत्ति-

चीर^०

इन्द्रिय-वृत्ति- विचित्र^०

इन्द्रिया(य-श्रा)दि- प्राण^०

इभ^०- शनि^०

+इभ-सुगम- शुभाश्राम^०

इयान- √इ(अध्ययने) द.

इर, र- अन्^०, तन्त्री^०, योगधी^०

इइला- गृह, ५१६९ द.

इइला- इइला^०

√इप(इच्छायाम्) √इच्छ द.

√इप(गतौ), >प्यि अनु^०, परि^०, प्र^०,

प्रति^०

इपित- प्र^०

+इप्य अनु^०, प्र^०, प्रति^०

+१प्य- प्र^०

+२प्यण- अनु^०

+प्यणीय- अनु^०

+३प्य(ण)>ण- अनु^०

+प्यमाण- अनु^०

+प्यविरात्रा प्र^०

+२प्यव्य- अनु^०

+प्य्य- अनु^०

+२प्य्यत्- प्र^०

इपु^०- तिग्म^०

इपु-यि^०- शत^०

+इप्वा(यु-श्रा)स^०- परम^०, महत्^०
इष्क, का- अभिचित्वा^०, पयन्^०

ई

ई>ई-कार- वियत्^०

√ई अव^०, उपसत्^०, प्रति^०

+ईय प्रति^०

ई- गृह, ५१६९ द.

√ईक्ष>क्षि अनु^०, अनुवि^०, अन्वव^०,

अप^०, अभि^०, अभिप्र^०, अभिवि^०,

अभिसम्^०, अव^०, उद्^०, उप^०,

निर्^०, परि^०, पर्यव^०, प्र^०, प्रति^०,

प्रसम्^०, वि^०, सम्^०, संप्र^०

+ईक्ष- उप^०, परि^०, प्र^०

ईक्षण- अन्तर्^०, अभि^०, तद्^०,

परदोष^०, उद्गा^०, य^०, प्र^०

+ईक्षणीय- जाप्रचित्वा^०

+२ईक्षण- अमल^०, अधुपूर्णा-

कुल^०, १कमल^०, नासाप्रदत्त^०, पद्म-

निभ^०, उप्कर^०, प्रकुलकमल^०

+ईक्षत्- प्रति^०

ईक्षमाण- अव^०, उद्^०, वि^०

+ईक्षयत्- अभिवि^०, वि^०

ई(च)>श्रा- अप^०, अभिसम्^०,

अव^०, उप^०

+ईक्षित- अप^०, परि^०, मन्त्र^०

+ईक्षिष्ट- उप^०

+ईक्ष्य अनु^०, अनुवि^०, अप^०,

अव^०, उद्^०, निर्^०, परि^०, प्रसम्^०,

वि^०, सम्^०, संप्र^०

+ईक्ष्य- दुर्निर्^०, दुष्प्र^०, निर्^०, प्र^०

+ईक्ष्यमाण- अव^०, वि^०

+√ईक्ष्य अभिवि^०

√ईक्ष्, ईक्षते वृष २, ३५.

ईक्षित- सनकादिमुनि^०

ईय √ई द.

a) वया. द. 1 इइ = इका(वी)गात्र- , लक्ष्मी- । b) 'ऐन्दवेन' इति श्रव्या, 'द्रमद्वै' इति श्रव्या.

संदि. । c) ऋ ६, ४०, ११ । d) तैश्वा ८, ८, १ । e) ऋ ६, ४०, ११ । f) गृह. (५१६९) इन्द्राया इत्यत्र यनि. च

आव^० इति च शोषः द. । g) तु. गृह. ५२४७h । h) भाप. । गृह. (५१६९) यनि. संख्यानिर्देशः द. । i) करणे

लुट् =नेत्र- । j) 'ईयते' इति ऋ ६, ४०, १८ ।

ईयमान- √इ(गती) परि. द्र.

ईयमान-

ईयिवस्- √इ(गती) द्र.

√ईर्, > रि अभिप्र°, उद्°, प्र°, प्रति°,

सम्°, समुद्°

ईर्- सम्°, स्व°

+ईर्क- प्र°

+ईरण- सम्°

+ईरयित्- प्र°

+ईरयित्वा अन्°

ईरित- -तः मैत्रि २, ६. [०त-

अणुवात्, अभिप्र°, उद्°, त्वं-

पद्°, प्र°, सम्°, समुद्°

+ईरितम् सम्°

+ईरिस्- प्र°

+ईरिन्- स्व°

+ईयमाण- प्र°

√ईर्ष्ये > ईर्ष्ये > ईर्ष्या- १आरा°,

१काम°, क्रोध°, जरा°, वृष्या°,

निन्दा°

√ईश अभि°

ईश- अभि°, अधि°, अन्°, अन्या-

कृष्टि°, अर्धनारी°, अष्ट...या°,

इन्दु°, गण°, गिरि°, गुडाका°,

गुण°, चण्ड°, जगत्°, जीव°,

३त्रिपुर°, दयत्°, १देव°, पर°,

परम°, पर्वत°, पार्वती°, प्रजा°,

१त्रयन्°, २भग°, २भुवन°,

भूत°, महत्°, ५योग°, हृदलोक°,

लोक°, १घाच्°, विप्र°, विप्र°,

वित°, विध°, विष्टप°, विष्णु°,

यक्रामि...ग°, पृष्ठी°, सर्व°,

सर्वश°, सर्वलोक°, २धुर°, हृदय°,

हृषीक°

+ईशा(श-अ)र्चन- अन्°

+२ई(रा)या- अन्°

ईशान- -नः श्रे ३, १५६. [०न-

अधोर°, इन्द्र°, तत्पर्य°,

परम°, १वह्नन्°, १वह्नन्°,

महत्°, विमला°, राक°, २धुर°,

हृदयहा°

ईशान-द्वल- गौरवण°

+ईशु- अभि°

ईश्वरी- अन्°, अधपूर्णा°, अ-

म्बिका°, अर्धनारी°, अवस्था°,

आत्मन्°, आनन्द°, ईदृश°,

ईश्वर°, शक्ति°, १चपि°, १काम°,

कैलारा°, गण°, गोपाल°, चामु-

रदा°, जगत्°, जगत्°, जल्प°,

जीव°, ज्ञ°, तर्कगम...च्°, तुली-

यचक°, ३त्रिपुर°, दिश°, १देव°,

द्वितीयचक°, धन°, नन्दि°, नारी°,

निकुञ्ज°, निर्°, नीलकण्ठ°, पद्म-

मन्त्रक°, परम°, प्रथमचक°, प्रथम°

चून्दापन°, १वह्ना२°, १भद्र°,

३भीम°, २भुवन°, मण्डल°,

महत्°, महाविद्या°, महास्तम्भ°,

मुनि°, मूर्ति°, यज्ञ°, ५योग°,

२योगिन्°, रत्नधामन्°, राजराज°,

१राम°, १रुद्र°, लौकिक°, १वज्र°

वट्क°, १वाच्°, विरान्°, १वि-

श्व°, १विरव°, वीर°, २वज्र°,

पट्टिशद्वय°, पण्डिसिद्धि°, सदा-

शिव°, सप्तमचक°, सर्व°, सर्व-

मन्त्र°, सर्ववागीश्वर°, सर्वविद्या°,

सर्वसिद्धि°, सर्वेश्वर°, सिद्धि°,

२सुर°, स्थल°, स्वगम्°

ऐश्वर्य- अन्°, अष्टन्°, आ-

नुस्°, ज्ञान°, देवेन्द्र°, धर्म°,

बुद्धि°, ब्रह्मादि°, १भोग°, महत्°

२योग°, १विरव°, सर्व°

+ईश्वर-पूजन- तपस्°

+ईश्वर-प्रणिधान- तपस्°, शौच°

√ईप्(गती) समुद्°

√ईप्(उञ्चे) गप्, ५१०२f द्र.

√ईर् > ईर्, हा- अन्°, निर्°, सम-

स्त्व°, सर्व°

ईहित- अन्°

उ

१उ > उ-कार- अकार°

२उ गप्, ५१०३ द्र.

√उच् अभि°, परि°, प्र°, संप्र°

+उक्ष- महत्°

+उक्ष-सेन- सुद्युम्°

+उक्षण- अभि°

उक्षित- प्र°

+उक्षय अभि°, परि°, प्र°, संप्र°

उ(प्र) प्रा- -आ व ष्टुः २०६.

[०म- अति°, अन्°, रणित्°,

२वित्तल°, महत्°]

+उग्र-जटा- एक°

+उग्र-भक्षित- महोप्रविप°

+उग्र-भङ्गा- १नन्द°

+उग्र-भैरवा(व-आ)दि- दिग्म-

वादि°

+उग्र-रूप-वदन- प्रकटितदंष्ट्रा°

+उग्र-यज्ञ- पशुयोगि°

√उच् > उचित- गार्हस्थ्य°, गृहस्थ्य°,

तत्तदण्ड°, तप्तदुमुवन°, तद्°,

यया°, वर्णाश्रम°, १समय°,

सर्वच...ल°

उच्च- > +उच्च-नीच- अति°

+उच्च-नीचा(च-आ)पत- अति°

उच्चैः अति°

उ(इ)च् > चर् > चरि > १उच्-

चाटन- प्रहमण्डल...र्ष°, चि-

न्ता°, १भारण°, सर्वश्वर°

उच्-चाटि(न्)नी- दुष्टग्रह°

उ(इ)च् > चर् > चारि > उच्-

चार- नामन्°

उच्च-चारण- अकार°, १ओकार°,

त्रियुष्णीकृतप्रेष°, त्रिविध°, नामन्°

प्रेष°, सकृद्°

a) गप्. (५१६९) यनि. संख्यानिर्देशः द्र. 1 b) °तम् इति मै २, ९; सात. 1 c) कर्तरी कृन् (गप्, ५१०० यनि. संख्यानिर्देशः द्र.) 1 d) भावे कृत्. e) चप्रा. द्र. 1 f) अ १०, ९०, २ (उ. टि. वैप १ यस्या.) 1 g) तैषा ४, २३, १।

उच्-चार्य द २:

उ(द्व)>च्/चल्, उच्चलति योच्
२७।^१

१-२ उच्चाटन- उच्चाटिनी- उच्-
✓चद् द्र.

+ उच्चल् वि°

उ(द्व)>च्/च्छिद् > उच्-छित्ति-
अन्°, आंकारोपरण°, तद्°,
विशेषगुण°, सर्व°

उच्-छेद- अत्यन्त°

+ उच्-छेदन- संसार°

उ(द्व)>च्/छि(रि)प् > उच्-
छिष्ट- अन्°, उच्छिष्ट°, तद्°,
देह°, भोजन°, रोहित°, रलो-
हित°, स्व°

उ(द्व)>च्/छि(रि)प् > उच्-छित-
अति°, नरद्वय°, १पुरुष°

उच्छ्व(द्व/स्व)स्, > श्वासि > उच्-
श्व्वास- १ निश्वास°, १ निश्वा-
स°, निःश्वास°, समीकरण°

+ उच्-श्व्वासन- निःश्वास°

+ उच्-श्व्वासिन्- कर्त्तृ°

उच्य, उच्यमान- ✓वच्(परि.) द्र.

उच्चायी- > उच्चाट्या(य्यी-श्वा)य्य-
य्यम् यो १, २९।^२

उ(द्व)>ज्/जीव् > उज्-जीवक-
सकालोक°

उ(द्व)>ज्/जुम्भ् > उज्-जुम्भण-
णम् निता २, ६१°.

उ(द्व)>ज्/ज्वल् > उज्-ज्वल-
अनन्तशिखर°, एक°, किरिट-
सुकेट°, परमा...य°, महत्त्वं, सुकु-
दा...य°, शशिक...ट°, सुहृ-
...त°, सदा°

+ उज्ज्वल-ज्वाला-सहस्र-

नयन°

+ उज्-ज्वलित- तद्°

✓उज्म्भ् अप°, प्र°, मम्°

उज्मित- अप°, प्र°, लोभादिदोष°,

विषय...शा°, मम्°

✓उज्ज्व् > उज्ज्व- आहृत°

उज्जु- रमद्°

उज्जु-प- १ मद्भन्°

उ(द्व)>द्/डी > उद्-डि- > उ-
ड्पि(न)ण- -णः १ योत २६°.

उड्पि(न)ण- > उड्पि(न)ण-

(ए-श्च)भिष- -घः योशि १,

१०३।^३; यो १, ४१°.

+ उट्क- १ कप°

उ(द्व)>त्/कट- निरन्तर°, मद्°,
सर्व°

+ उकट-जलद्- अनन्त°

+ उकट-ज्वलद्-अर- अनन्त°

उ(द्व)>त्/कण्ठ-

+ उकण्ठ-भी(व)वा- -वा सार

२५४ : १९.

✓उकण्ठ् > उकण्ठ, ण्ठा- ६ स°,

१ मुत्त°

उकण्ठित(त)वा- विरह°

उ(द्व)>त्/कृप् > उत्-कृष- सर्व°

+ उत्-कृषि(न)गी- विमला°

उत्-कृष्ट- अत्यन्त°, कुस्मित°,

विविध°, सर्व°, इति°

उत्कृष्ट-तम- मम् वृत् १९६ :

१४।

+ उत्कृष्ट-बुद्धि- ईश्वर°

उ(द्व)>त्/कम् > उत्-कान्त-

अन्°

उत्-कामित- सुपुति°

+ उ(द्व)>त्/खन् > उत्-खात-

खुरपुट°

उ(द्व)>त्/तन् > उत्-तान- >

+ उत्तान-पाद्- रथाणु°

उ(द्व)>त्/तप् > उत्-तप्त-
अन्तस्तृष्णा°

उ(द्व)>त्-तम- -मम् छां ३, १७,
७; ११। [म- अन्°, उत्तम°,

जीव°, तापस°, द्विज°, वृष°,

परिडत्, पुराणपुरण°, १ पुरुष°,

पुरुषोत्तम°, प्रथम°, ब्रह्मविद्°,

१ ब्राह्मण°, मृशु°, मन्त्र°, रथ°,

सर्व°, सर्वधुति°]

उत्तमा(म-श्च)ङ्ग- नत्°, बहुकठोर°,

२ महिष°

उत्तमो(म-उ)त्तम- सर्वमन्त्र°, सर्व-

यज्ञ°

उ(द्व)>त्-तर- अधर°, अष्टन्°, अ-
ष्टाविंशति°, उत्तर°, एक°, क्षीर°,
चैलाजिनकुश°, चैलाजिनकुश°,
तद्°, २ दक्षिण°, नामि°, निष्पन्द-

भाव°, पूर्व°, प्रति°, लौक°, वचन-

प्रतिवचन°, सप्तन्°

उत्तर-दल- पीतवर्ण°

+ उत्तरीय- गजानन°

उ(द्व)>त्/त्त् > तारि, तिव, + उत्-
तरण- नदी°

+ उत्-तार- संसारसागर°

+ उत्-तारण- प्रचारण°, संसार°

+ उत्-तीर्थ- १ विश्व°

उत्था(उद्/स्वा), > तिष्ठ, उत्तिष्ठ
वृ ६, ४, १९१।

+ उत्-थ- अपघ्नीकृतमृत°, आत्म-

तत्त्व°, जाश्रुसंस्कार°, निद्रा...

द°, १ पत्र°, मनन°, महाभूत°

उत्-थित- अचदसलिल°, कण्ठ°,

१ मुत्त°

उ(द्व)>त्/पद् > पाटि > उत्-
पाटन- संजीवनपर्वत°

a) 'चलति' इति निसा. ? यनि. शोधः द्र. (तु. अञ्जा.) । b) 'जाया' इति निसा. ? यनि. शोधः द्र. (तु. अञ्जा.) । c) 'चुम्भ' इति. निसा. ? यनि. शोधः द्र. (तु. अञ्जा.) । d) पूर्वैण संविपरिः । e) 'कुं.' । f) निसा. अण । टि. वैप १ नरत्वा.) ।

उ(इ)त्/पत् > *उत्-पात-
शय्या°
उ(इ)त्/पद् > उत्-पत्ति- -तिम्
कुं० ३:२; प्रवि० [०]त्ति-अम्,
अनन्याश्रयधर्म°, भूमिमान°,
सम्बन्ध°, गर्भ°, तद्°, पूर्व°, प्रप-
न्ध°, ब्रह्मज्ञान°, रूढाच्च°, श्रीमद्ब्र-
ह्म°, संविद्°, संसार°, स्थिति°
उत्पत्ति-प्रणव- उभयान्तक°
+ उत्पत्तय(ति-अ)पायो(य-उ)-
न्मेप-निमेप- जगत°
उत्-पन्न- अज्ञान...क°, अन्°,
अभययभयण°, उपासकद्वल°,
तत्त्वष्टि°, तद्°, पितृ...ध°, पूर्व°,
१श्रुति°, सवस्°, स्थि°
उत्-पाद- २असत्°, उत्तर°
+ उत्-पादक- १उच्चाटन°, प्रेमम्,
सकललोक°
+ उत्-पादन- पुनर्°, राक्षिर्ध°
+ उत्-पाच- तन्नु°
उत्पल- कपाल°, १नील°, ३रक्त°,
लता°
+ उ(इ)त्/प/पशु > फंडत्-पश्यत्-
इधन्तः ङी ३, १७, ७°.
उ(इ)त्/सह > उत्-साह-
१श्रुति°, युक्ति°, १मात्र°,
१मनस्°, ६स°, १द्वरत्°
उ(इ)त्/स(प्रेरणे) > उत्-सव-
कृष्णपक्षयण°, वृह°, १देव°, देव-
यात्रा°, पर्वत्°, मरण°, महत्°
उत्सव-दर्शन- देवपूजन°
उ(इ)त्/स/सादि > + उत्-
सा(ज- त्रिप)पवित्र°, भूत्°
उ(इ)त्/सुज > उत्-सर्ग- आ-
नन्द°, वचन°, २शुक°
+ उ(इ)त्/रिम > उत्-स्मित-
कास°

१उद् गण. ५१७९ इ.
२उद् घृ १, ३, २३; ४°.
✓उद् > उत्स- > ✓उत्स् > उत्सु-
क- कलह°
+ उत्सुक-वन- मधुरावन°
उद्- १अच्छ°, अमृत°, उद्भूत्°
१उद्-धि- अमृत°, २चार°, दी-
क्षित°, दुःख°, २दुग्ध°, २भव°,
महत्°
उद्-पान- १अन्ध°
+ उद्(इ-अ)र्णव- चरि°
उ(ऊ)दक- अमृत°, अर्घ्य°, आ-
कारा°, उष्य°, कमण्डलु°,
केदार°, गन्ध°, तृण°, नाभिदण°,
निर्°, पितृ°, १पीत°, पूर्णपात्र°,
१फल°, बहु°, २भग°, महाप्य°,
महेश्वरपाद°, १वज्र°, सीत°,
६स°, संस्तुत्°
उदक्या- शूद्र°
२उदधि- १नन्द°
उद्(इ/अ)न्(प्राणने) > आनि >
उद्-आन- प्राण°, न्यान°, न्या-
न°, १समान°
+ उद्-आनयितव्य- शन्°
उद्- अन्तरिक्ष°, युद्°, शीवा°,
२जल°, जिह्वा°, १त्वन्°,
रामन्°, पाणि°, गार्द°, वृष्टयंश°
बहु°, बाहु°, ब्रह्माण्डभाण्ड°
महत्°, यजुर्°, समन्°, १विदग्ध°
१विध°, २शुक°, शिरम्°, शिशु°,
२सद°, सागर°
+ उद्-शूल- अज्ञशूल°
+ उद्(इ-अ)र्चिस्- > उद्चिर्द-मणि-
तत्प्रणामण्डल°
उद्(इ-आ)द्/द्वा(दाने) > उदा-त्ता-
अन्°, अनुदात्त°, विश्वम्°, दीर्घ°,
हस्त°

उदार- परम°, प्रसूत°
+ औदार्य- > औदार्य-सौन्दर्य-वैरा-
व्य-रस- १उदित°
उदा(इ/आ)स् > उद्-आसीन-
सुहृद्°
उदि(उद्/इ(गती)) > उद्-अय-
अपान°, अहंभाव°, आत्मलाम°,
१क्षय°, चन्द्र°, ज्ञान°, तरवज्ञान°,
१नित्य°, पितृवध°, प्रलय°,
१फल°, भाग्य°, महत्°, महाभा-
ग्य°, रूपग्रहणकार्य°, लययोग°,
लिङ्गशरीर°, २वासना° वितत°,
विशवाहसंतत°, सविला...वा°
उदय-स्थिति-लघु- मूलविद्या°
उदया(य-अ)स्त्वभ्य- ६स°
उद्-स्यत्- पुनर्°
१उद्-इत्(त) > त्वा- त्वा गौ ३, १५.
[०]त- जग्मान्तर°, मुत्रिकाल°,
१नित्य°, पूर्व°, प्रपन्न°, १यत्°,
युगपद्°, शाम°, शा-त्त°, शान्त°,
शीर्ष°
उद्-यत्- > + उद्यत्-सूर्य- चम्पक°
उदुम्बर- आम°, पालारा°
औदुम्बर- चतुर°
+ उदुम्बर-यद्-नीवार-इयामक-
तदाहत्°
उद्/गम् > उद्-गम- १श्रुत्°
उद्/ग(निगारणे) > उद्-गार- अ-
गान°
उद्/गे, गा > + उद्-गायत्- यत्
अव्य ६.
उद्-गोथ- दुर्°, धण्य°
उद्/दिग् > उद्-देश- चेतन°
उद्/वीर् > + उद्-वीरिन्- सक्त-
लोक°
+ उद्/घुत् > उद्-घोव- उदयिवा-
क्य°

a) अथवा: सं. अया. । b) आत. अया. । c) तु. ना., ता. (सौत्र २, ६, ६, ६, ६, ५), GIV.;
पैतृ. रु. उ., म., PW. प्रथ., शं., j. ०. उद्/गम् > उद्...धगम इति । एतदनु गण. (११८२) सत्य. पति.
शोषः द्र. । d) व्यु? = गोपविशेष- ।

उद्/घ(< हन् > उद्-घत- >
 *श्रीद्वय- अन्°
 उद्भव° - -वः कृ १६°
 उद्/धू > उद्-धूत- पराग°, रपन°,
 पुष्पपराग°
 उद्-धूलि- > उद्बलि- उद्बलन-
 त्रिपुण्ड्र°, भस्मन°, सर्वाङ्ग°
 उद्बलित- भस्मन्°
 १ उद्भू गप् ५१८३ द.
 २ उद्भू(द्/धृ < > ह) > उद्-धरण-
 -गम् मैत्रि ६,३०°
 उद्-धार- आत्मन्°, १चीज°, षट्-
 चक्रमण्डल°, सुदर्शनादियन्°
 उद्-धत्(त)ता- -ता सु २९३:
 ५५°
 + उद्भू(द्/ह) > जिहीषु > उज्-
 जिहीषु(धे)षां- संक्रिष्ट...पा°
 + उद्/भास् > उद्-भासित- कौस्तु-
 भ°
 उद्/भिद् > उद्-भिद्- > उद्विज्-
 ज- अण्डज°, कम्भज°,
 जरायुज°
 उद्/भू > माधि > उद्-भव- अन-
 स°, अश्रुत°, अश्रुतकलरा°, कण्ठ-
 कृप°, १करण°, कामकोष°, चन्द्र°,
 जगत्°, तत्स्थान°, तद्°, तद्बृ-
 न्दावन°, तन्मण्डल°, दारु°,
 देह°, निजशक्ति°, नियमातिक्रम°,
 नूतन...त°, वृन्दावन°, १ब्रह्मन्°
 २भव°, भूतभाव°, महाकल्पान-
 न्तर°, मांशत्वकक्षीयित°, १वस-
 न्त°, विभव°, वैकुण्ठस्थान°,
 श्रीराधा...शी°, सलिल°, साध-
 न°, स्थूलस्...ह°, हेतुकल°
 + उद्भव(व-ञ)उद्भव- शक्ति°
 + उद्-भावन्- > उद्भावन्-कर(>)
 री- -री सी ६°
 उद्-भूत- अनन्त...न°, कृष्णाणोपी-
 रत°, रूढ...क°, तद्वज्राण°,

माश्राथैवासाना°, मल°, मूल...स°
 + उद्-भूति- अष्ट°
 उद्य- /वद्(परि) द.
 उद्/यम्(यमने) > उद्-यत- म्रिया-
 शक्तिवल्°, ज्ञान...वल्°, दिव्य...°,
 नाडीसंस्पर्शन°
 उद्-यम- मक्षिप...र°, गु°, स्वार्थ-
 नारा°
 उद्/या > + उद्-यान- कल्पक°,
 विषय°
 उद्/युज् > उद्-युक्त- फलना°,
 १नित्य°
 उद्-योग- १सत्य°
 उद्/रिच् > + उद्-रिक्त- तमस्°,
 रजस्°, सत्त्व°
 उद्-रेक- १व°
 उद्/वस(निवासि) > घासि > + उद्-
 वासन- गायत्री°, १अद्भ्यन्°
 उद्/वह > + उद्-वाह- अन्°, कृत°,
 मद्गानन्दरस°
 + उद्-यासस्- मल°
 उद्/चिज् > उद्-विश्व- अन्°, निद्र°
 उद्-वेग- अन्°, अन्य°, गत°,
 शोक°, हर्ष°
 + उद्भेग-कर- अन्°
 उद्भेगिन्- गी महा ६,६३°
 उद्/वृत् > + उद्-वर्तन...-अभ्यङ्ग°
 उद्वर्तन-क्रिया- आयाम°
 उद्(>)न्/नम् > उद्-नत- अति°,
 अत्यन्त°, अनन्त°, त्रिस्°, हठी-
 भूत°, निम्न°, पीन°, शुद्धा...न्°
 उद्(>)न्/नी > उद्-नयन- समी-
 करण°
 उद्(>)न्/मद् > मादि > उद्-मत्त-
 अन्°, अनुमत्त°, अमोदमदिरा°,
 क्रोध°, वधिर°, १वाल°, मदिरा°,
 मोहमदिरा°, यौवन°
 + उद्-माद- पराग°
 + उद्-मादन- मदन°

उद्-मादिन्- मनमपमन्°, महत्°,
 सारसमन्°, सर्व°
 उद्(>)न्/मन् > + उद्-मन-
 १मनस्°
 + उद्-मानि >)नी- १मनस्°
 १ उद्-मनस्- गम्°
 १ उद्-मनी- > उन्मन्य(ती-ञ)-
 घट्या- प्राण°
 २ उन्मनी- गप् ५१८५ द.
 + उद्(>)न्/मा(मानि) > उद्-मान-
 १येत्°, १वशब्द°
 उद्(>)न्/मिप् > उद्-मेप- अन्°,
 जगत्°, निमेप°, निमेपण°
 उन्मेप-निमेप- अक्षि°, उत्पत्त्युपा-
 य°, चित्त°, प्राण°, मील्य°
 उद्(>)न्/मील् > उद्-मीलन-
 र्थ°
 उद्-मीलित- अर्ध°, किंचिद्°,
 तर्जन्म्य°
 उद्(>)न्-मुख- आत्मन्°, १आशा°,
 कलनाकलन°, २चैत्य°, रावण°,
 शब्दवीजराय°, संकल्पन°, संसृष्ट°,
 स्पर्शवीजरस°
 + उद्(>)न्/मुच् > उद्-मुक्त-
 सर्वाथैवासाना°, हृषीमर्षभव°
 + उद्(>)न्/मूल् > उद्-मूलन-
 सुमेरु°
 + उद्-मूलित- समूल°
 उप/ह् > उप-करण- क्रीडा°, रूढ°,
 जलक्रीडा°, तद्°, ताभ्र°, भगव...
 जा°, मात्रा°, १लोह°, राष्ट्र्या°,
 २थपण°, ६स°, सर्व°
 उप-कार- प्रकृति°, सर्वलोक°, स्व°
 + उप-कारक- उपकार्य°, साधन°
 उप-कारिन्- अन्°, सर्व°
 उप/क्रम > उप-क्रम- ज्योतिष्°,
 २दक्षिण°, निद्र°, ६स°, सति°
 उप/गम् > + उप-गत- मेपभूय°,
 वेदान्त°

*उप-गमन- १मोक्ष°
 उप/गै>गा>उप-गान- २कृपा°
 *उप/घट्>उप-घटित- ह्यटक°
 उपघातक- , घातिन्- उप/हृत् द.
 उप/चर्>उप-चार- -रः भा ३६°.
 [०र- दिव्य°, पद्मन्°, मानस°,
 राजन्°, वक्षत्रभरणादि°, वाया-
 रम्भ°, विविध°, षोडशन्°, सर्व°,
 सर्वानकपूना°]
 उप-चारिन्- यथावत्°
 उप/चि(चयने)>उप-चय- भावना°
 उप/जन्>*उप-जमित- कर्मन्°
 उप/जीव्>*उप-जीविन्- यथा-
 लब्ध°, रशित्प°
 उप/तप्>उप-त्ताप->उपता-
 पिन्- अन्°
 उप/दिद्>उप-दिष्ट- गुरु°, यथा°
 उप-देश- अधिक°, अन्°, अन्य°,
 अन्यार्थ°, अभिध्या°, अशक्य°,
 अशकृन्°, आत्मन्°, आप्त°, ऊर्वा-
 श्रायगुरु°, रकल्पना°, गुरु°,
 गुरु°, ज्ञान°, तत्तन्मन्त्र°, तत्त्व°,
 तथादृष्टि°, तद्°, तद्धर्म°, १तार°,
 १तारक°, पर°, परमगुरु°, पृथक्°,
 प्रणव...क्य°, प्रत्यक्ष°, १व्रह्मन्°,
 महावाक्य°, १मोक्ष°, मोक्ष-
 साधन°, वाक्यार्थ°, वियोग°,
 विहार°, १सुरत°
 उप-रेट्- उप-देश्य°, तद्°, दिव्य-
 ज्ञान°
 उप/हु>उप-ह्वव- छुद्°, निर्°,
 पर°, राजचौ...दि°, सर्व°, सुतडु-
 ...म्°
 उप/धा>उप-हित- कृतस्य°
 उप-नन्द- १नन्द°
 उप/नम्>*उप-नत- अयत्न°
 *उप/नश्(कृदशने)>उप-नासिन्-
 सर्वैनुद्भ्रम°
 उप/नह्>उप(०)वा-नह्->*उप-

नत्(-क)- ६स°
 *उप/निद्(संनिकर्षे), उपनिद् व
 ४३२: ४.
 *उप-नि/मन्त्रि(<मन्त्र-)>उप-
 नि-मन्त्रण- स्थानिन्°
 उप-नि/प(<स)म्>उपनि-पद्-
 अह्वयतारक°, अनन्त°, अक्षरपूर्ण°
 अपरोक्ष...र°, अमृत°, अष्टो-
 त्तररात°, असिताग्नी°, आत्म-
 प्रबोध°, इत्यादि°, उत्तर°, एतद्°,
 कालाग्निहृद्°, गणेशतापनीय°,
 १गुह्य°, तद्ब्रह्मन्°, तुलसी°,
 तापनीय°, तेजोविन्दु°, त्रिमूर्ण°,
 दृश्यन्°, द्वात्रिंशाल्य°, नाना°,
 निरालम्ब°, निर्वाण°, परमतत्त्व-
 रहस्य°, परमतत्त्वहस्ताख्य...ण°
 पुष्टसङ्क°, वृहज्वाबाल°, १व्रह्मन्°
 मन्त्र°, महत्°, २सुम्रल°, रहस्य°,
 राजश्यामलारहस्य°, रदाक्षजा-
 बाल°, वदुक°, रवेद°, शालानन्तर°
 १शिव°, श्रीरात्रश्यामलारहस्य°,
 ६स°, सकल°, संकर्मण°, २सदा-
 नन्द°, संन्यास°, सर्व°, सौभाग्य-
 लक्ष्मी°, हेरम्ब°
 *उपनिपत्(-क)- उक्त°, धृत°
 उप/नी>उप-नयन- पक्षशीर्ष°,
 ६स°
 *उपनयना(न-श्च)नन्तर- अनु-
 फर्नात°
 उप-नीत- अन्°, सत्कृतभव°
 उप-नीय अन्°
 उप-न्य(नि/श्च)स्(क्षेपणे)>उपन्या-
 (नि-श्चा)स- १रूप°
 उप/पद्>उप-पत्ति- अन्°, इष्टा-
 निष्ट°, गति°, धर्म°, भूतादि...
 श°, यथा°, विवक्षितगुण°, १सत्°
 सर्वधर्म°
 उप-पक्ष- देशकाल°, प्रक्षर्च्य°,
 यथा°, यथाकाल°

उप-पातक- पातक°, महापातक°
 *उप-पीठ- पीठ°
 *उप/प्लु>उप-प्लव- -धम् विता
 ४,१४°.
 *उप/घन्प्>उप-घन्ध- एकवा-
 क्यता°
 *उप/घृह्>उप-घृहित- सकल-
 शक्ति°
 उप/भुज्>*उप-भुक्ति- १काल°
 उप-भोग- अन्°, कर्मन्°, १काम°,
 कालान्तर°, निर्°, शक्ति°, १कल°,
 १मुक्त°, शिवयज्ञ°, शिवाश्रम°,
 सत्यावृत°, स्नानसत्र°, स्वकारी°
 *उपभोग-देह- कर्मदेह°
 उप/मा(माने)>उप-म,मा-१अणु°
 अन्°, अमृत°, गगन°, गन्धर्व-
 नगर°, गाढतम°, गान्धर्वनगर°,
 गोक्षीरधवल°, २घट°, घनविद्युत्°
 दीप°, दीप्यमानगाढतम°, नभस्°
 मृष्टबीज°, मञ्ज°, महारथ°, मा-
 या°, मूकता...र°, मेरु...य°,
 लिपिकर्मीर्षित°, विद्युता°, विपिन°
 वैध्रवण°, शिला°
 औपम्य- अन्°, आत्मन°
 उप/यम्(दाने)>१उप-याम->
 उपयाम-गृहीत- -तः मउ
 २०,८५°.
 उप/युज्>*उप-युक्त- क्रीडा°
 *उप-योग- अन्तर्धारण°, न्याम°,
 यथा°, शिवगोष्ठ°, सर्वोपचार°
 *उप-योगिन्- तपस्वीला°
 *उप-योग्य,स्या- तर्हीला°, मञ्ज-
 क्रिया°, रलीता°
 उप/रज्ज्>*उप-रक्त- द्रप्यहरण°
 *उप-रज्जक- उपरज्य°
 उप-राग- २आकार°, उपशान्त°,
 एकदेशलभ्य°, तद्°, महत्°,
 विषय°, सूर्यचन्द्र°, मृष्टि°
 उप/रम्>उप-रत- चक्षु...ध°,

a) तान्त्रि. श्या. । b) चया. द. । c) पूर्वेषु संभिरार्थः । d) मा ८, १० ।

प्रपय^०, सर्व^०
 †उप-रम- १भरण^०, चतुर्दशकरण^०,
 प्रयासप्रवाह^०, विपय^०, सर्व^०, सर्व-
 न्द्रिय^०
 उपरि- अनामिका^०, अमितभो...ल^०,
 अमितान-दाचल^०, उदर^०, ऊरु^०,
 कण्ठ^०, कल्याणाचल^०, कारण-
 जल^०, १कृष्णाग्नि^०, २जल^०,
 जानु^०, तद्^०, तदन्त^० न^०, तदभ्य-
 न्त^० न^०, परमान...ल^०, पुपक^०,
 बोधान-दाचल^०, महाज्वा...प^०,
 मेय^०, वामोरु^०, वारानपणा^०,
 शीर्ष^०, पट्को...ह^०, शोट...ल^०,
 सर्वसंसार^०, हकार^०
 उपरिष्ठात् सर्व^०
 उप/रुप् > †उप-रोध- अन्^०,
 प्रतिज्ञा^०
 †उप-रेखा- रेखा^०
 †उपल- वैराग्य^०
 उप/लक्ष् > उप-लक्षित- अमानि...
 ण^०, अयुतकुसि^०, चतुर्विधवष्टि^०,
 पृथक्चिह्न^०
 उप/लभ् > रम्, उपलभ्यते मैत्रि
 ४, ४^b.
 उप-लब्ध- चिरप्रसाद^०
 उप-लब्धि- अन्^०, तद्^०, तल्लक्षणा-
 र्थ^०, प्रत्यन्त^०, १मोक्ष^०, शब्द^०,
 १स्वल्प^०
 †उपलब्धय(धि-अ)नुपलब्धि-
 प्रसङ्ग- १नित्य^०
 उप-लभ्य अन्^०
 उप-लभम्- अन्^०, १स^०
 उप-लभन- अन्^०
 †उप-वन- प्राकार^०, वन^०
 उप/यस्(अशने)> उप-वास-एका-
 दशी^०, कर्मन्^०, प्रातःस्नान^०, व्रत^०
 †उपो(प-उ)पित- त्रिरात्र^०

१उपो(प-उ)प्य^०
 उप/विद् > †उप-विद्य अन्^०
 उप-विष्ट>ष्ट- रत्नागठ^०
 †उप-वेदा- संगम^०
 उप/व्ये>धी>उप-धीत^१- अग्नि^०
 अन्तर्^०, कार्पा...त^०, ज्ञान^०,
 यज्ञ^०, शिखा^०, शुभ्रवस्त्र^०, १स^०
 उपवीतिन्- -तिनः शा ११.
 उप/शम् > उप-शम- पर^०, परम^०,
 प्रपय^०, संकल्प^०
 †उप-शम(न)>नी- प्रपय^०
 उप-शान्ति>न्ता- न्ता अक्ष ५,
 ८५.
 उप-शान्ति- मनःस्पन्द^०
 उप/शुभ् > शोभि > †उप-शोभ-
 त्तरण्डक^०
 उप-शोभित- ज्ञानमुद्रा^०, सर्वरज^०
 उप-सं/रित्लप् > उपसं-रिल्ल- >
 उपसंरिल्ल-व- न्वाद् मैत्रि
 ३, ३^d.
 उप-सं/ह > †उपसं-हरण- स्वशा-
 खा^०
 उपसं-हार- अजपा^०, पञ्चद्वन्द्व^०,
 प्लुति^०, सर्व^०, सर्वकरण^०, सवि-
 ला...या^०
 †उप-सं/प्रह् > उपसं-मह- संख्या^०
 उप/सद् > उप-सद्य- अन्^०
 †उप-सं/नद्(व्याप्तौ), उप...सम्-
 ...आनद् मना २, १२, २५^f.
 उप/सृज् > उप-सर्गा- आख्यात^०,
 ज्ञान^०, महत्^०
 उप/सृप् > उप-सर्पण- अन्य^०,
 प्रयाति^०, बलिर्वैरवदेव^०
 †उप-स्य- १मुक्त^०
 उप/सेष् > †उप-से(व)>वा-
 परदार^०, २लीला^०
 उप-सेव्यमान- महालीला^०

उप/स्तु > उप-स्तरण- अग्न^०
 उप/स्या > †उप-सर्षि- अन्^०
 उप-स्य^०- कर्ष^०, जिह्वा^०, पाद^०,
 १पायु^०, पृथिवी^०, रय^०,
 १यान्^०, शिरग्^०
 उप-स्थान- १गृह्यु^०, सर्वरत्न^०,
 १स्य^०
 उप-रिषत- द्वादश...याम^०, महा-
 नित्य^०
 उप/हन् > †उप-घातक- सर्वमृत्यु^०
 †उप-घातिन्- शीत^०
 †उप-हत- अज्ञान^०, अत्यन्त^०,
 उच्छिष्ट^०, उच्छिष्टोच्छिष्ट^०, कार्प-
 र्यदोष^०, दारिद्र्य^०, पाण्डु^०,
 १राग^०, लोभ^०
 †उप-इति- १राग^०
 उप/हस् > उप-हास- अपय^०
 उप/ह > उप-हार- महत्^०, मुक्य^०
 †उप-हत- २भक्ति^०
 उपा(प-अ)शु- -शु व ४६० : १२^f.
 [०शु- उधैः]
 उपा(प-आ)/ख्या > †उपा-ध्या-
 निद्^०
 उपा(प-आ)/गम् > †उपा-गम-
 तद्^०
 उपा(प-अ)ङ्ग- १अङ्ग^०
 उपा(प-आ)/द्वा(दाने) > †उपा-त्त-
 स्वच्छन्द^०
 उपा-दान- अन्य^०, २आय^०, उपा-
 देय^०, प्रकृति^०, सर्व^०, हान^०
 उपादान-कारण- जगत^०
 उपा-देय- अन्^०, हेय^०
 उपा(प-आ)/धा > उपा-धि-
 अखिल^०, अन्^०, अविद्या^०, आत्म-
 न्, एतद्...र्ष^०, कटकमुकुटादि^०,
 कारण^०, कार्य^०, कार्यकारण^०,
 तद्, देवति...श्च^०, देह^०, निद्^०,

a) व्यु. 1. b) लभते इति सात. । c) गृह्. (५१८९) यनि. संख्यानिर्देशः द्र. । d) संसृष्ट इति सात. ।
 e) गृह्. (५१९१) सस्य. 'उपाशु-> -शुना' इत्यत्र यनि. च 'अंशु-> -शुना' (उ. गृह्. ५९८७) इति च शोधः द्र. ।
 f) श्रु ४, ५८, १ । g) कर्तिरि किः प्र. (षा ३, २, १७१) । h) यथा. द्र. । i) श्रु १०, ८३, ७ ।

परजीव°, माया°, शरीर°, सर्व°, स्ववश°, स्वस्व°
 *उपाधि(-क)- अन्तःकरण°, निर्°, महाभू...त्र°, माया°, ६स°
 उपाधि-रहित- १सत्य°
 उपा(प-अ)र्जु> *उपा(प-अ)र्जन-
 'अर्थ', वृत्ति°
 उपा(प-अ)र्जित- पूर्वजन्मन्°, स्वन-
 कर्मन्°
 उपा(प-अ)र्ध्रि> *उपा-ध्रय-निर्°
 उपा-ध्रित- आध्रित°
 उपा(प-अ)र्ध्रि> *उपा(प-अ)र्ध्रक-
 कानाम् गु ८३. [°क- अग्नि°, अनन्य°, अन्य°, अन्यविद्या°, अल्प°, कर्मकारण°, कर्मध...त्तु°, कर्मन्°, २काल°, तन्मण्डल°, तल्लाला°, धर्म°, नारायण°, वृन्दा-
 वन°, वृन्दावनलाला°, धर्मज्ञानवैत°
 भागवत्°, भजनानन्द°, मत्स्य-
 क...म°, मद्°, मदीय°, मन्त्र°, मन्त्रतन्त्र°, २यत्°, यत्°, यातुय-
 मन्त्र°, ससमार्ग°, रसिकानन्द°, रासमण्डल°, १ध्म°, मृजमण्डल°
 १शिव°, शिवात्मैक्य°, शिवाद्वैत°
 सवि...त्मन्°, सद्विद्या°
 १उपा(प-अ)सन- अश्वस्तहप°,
 आचार्य°, कर्मन्°, तद्°, तन्मन्त्र°
 बहुधास्त्रगुण°, शुद्धविदूष°, सद्-
 गुण°
 २उपा(प-अ)स(न>)गा- कर्मन्°,
 तदीय°, देवमनुष्य...दि°, मद्°,
 मदीय°, यद्°, २सञ्चा°
 उपासना-मात्र- यद्°
 उपा(प-अ)सितम्ब- २यम्भा ३२°
 उपा(प-अ)स्त्रु> उपा-सह-
 नि°
 १उपे(प-इ)र(गती)> उपा(प-अ)य-

आत्मदर्शन°, कैवल्यप्राप्ति°,
 २जय°, तदामि°, तत्रिष्टुति°,
 परतर°, प्राणजय°, मनःप्रशमन°,
 मुक्ति°, १मोक्ष°, विविध°, संसार°,
 सर्व°, सिद्ध°, सुख°, हान°
 *उपाय-भूत- आत्मलाम°
 उपे(प-इ)त- अमित्रयकला°, आत्म-
 ज्ञानगुण°, एकविंशकुल°, कस्तू-
 रीतिलक°, कुलैकविंशक°, चतु-
 त्रेगीवक°, १त्रिगुण°, दिव्यालं-
 करण°, दुर्मल°, द्वार°, नव...य°,
 पीतवर्णद्वय°, पुष्पारामजल°,
 महापुरण°, वन°, शतावयव°,
 रामदमादि°, संशुद्धि°, सत्कवाट-
 द्वय°, सर्व°
 उपे(प-इ)त्थ अन्°
 उपे(प-ए)य-
 उपे(प-ई)श्च> उपे(प-ई)क्षा- मैत्री°,
 हान°°
 उपे(प-ई)क्षिन्- तुः सर ३, २८१°
 उपे(प-इ)न्द्र- दिश°, निशाकर°°
 उपेयिवस्- गृह, ५११३ द.
 उपो(प-उ/उप्(दाहे))> २उपो(प-उ)-
 प्य अन्°
 १उपोप्य उप/वस् (प्रशने) द.
 /उच्च् नि°
 उच्च- नि°
 उभ- -भवोः मैत्रि ७, ११°
 उभय- -वम् मैत्रि ७, ९. [°य-
 चलस्त्रि°, शानाज्ञान°, तद्°,
 सिद्धिद्वि°]
 *उभय-कोटिक- अष्ट°
 *उभय-तट- मद्°, तलवद्°
 *उभय-देह- कर्मदेह°°
 *उभय-पार्श्व- सीधिनी°
 *उभय-रूप- विरट°, व्यापृत°
 उभया(य-आ)त्मक- विरट°

उमा- १शिव°, ६स°
 उर-ग- -गन्धर्व°, महत्°, यक्ष...ण°,
 शनि°
 उरस्- - कौस्तुभोद्भासित°, पद्मानाम°
 *उरस(-क)- श्रौतसकौस्तुभ°
 उरु-> उर्वी- शक्ति°°
 उलूक- -सर्प°
 उलूल्ल- -मुसल°
 उ(ल्क>)ल्का- ज्ञान°, कुद्ध°, ज्वलत्°,
 १पृष्ठ°, महत्°, महान्यकार°,
 विद्या°, विद्युत्°, वीर°, वीर्य°,
 वृद्ध°, संधिद्°, सहस्र°
 उ(द्)> ल्/लस> *उल्-लसत्-
 ललाटपट°, स्वेदविन्दु°
 उल्-लास- अष्ट°, खेद°, ६स°
 उल्-लासिन्- मेदश्रुतलट°
 उ(द्)> ल्/लिष्> *उल्-लेसिन्-
 -तशकार°
 *उशिज्-> औशिज्- -जः मना
 १, १११५°
 /उप्(दाहे) उप°
 उष्ण,ष्णा- -ष्णः अग्नि ६^१; -ष्णा
 व ४४३ः २०^१. [°ष्ण- अग्नि°,
 -अन्°, १का°, १तुप्°, शीत°,
 शीत°°]
 औष्ण्य-> *औष्ण्य-स्थान-
 प्रकाशप्रक्षेपक°
 ३उप्य उप°
 उपण- /वत्(प्रशने) परि. द.
 उपा- १उत्था°°
 १उपित- /वत्(निवासे) परि. द.
 २उपित- /वत् (प्रशने) परि. द.
 उडि- /वत्(विधा.) परि. द.
 *उन्मीप- ६स°
 *उन्मीप-रदिम्- १नन्द्°°
 १उप्य /वत्(निवासे) परि. द.
 २उप्य /वत् (प्रशने) परि. द.

a) तान्त्रि. अया. । b) गृह, (५११३) यनि. शोधः द. । c) तु. गृ. ५४०७C । d) *भयः इति गात. ।
 o) भय° इति गात. । f) वैर १ यद. । g) *जम् इति निपा? (तु. तैमा १०, १, ११) यनि. शोधः द. (तु. अष्ट १,
 १८, १) । h) अस्याः सा. अया. । i) तैमा ४, २३, १ । j) गृ. (५११६) यनि. संख्यानिर्देशाः द. । k) मृ. १ ।

उस- कालामिस्यं
उस- उद्य/वह (वधा.) परि. द.

ऊ

ऊचान- √वच् (परि.) द.
ऊद- √वह (वधा.) परि. द.
ऊदक- √उद् (परि.) द.
*ऊधस्- २घट°
ऊन- एक°, तद्°, नि°
+√ऊच् प्र°
+ऊरु- प्र°
ऊरु- गुरु°, जातु°, तद्°, १त्वच्°,
१दक्षिण°, नामि°, पर्वतेश°, पा-
द°, वृष्टवंश°, बाहु°, मस्तक°,
राजरम्भा°, स्वामि°, शिरसु°,
श्रोत्र°, १सव्य°, स्थूल°, १हृद्°
+ऊरु-कटि-बन्धन- तद्°
+ऊरु-शूल- शिरःशाल°
√ऊर्णु अप°
ऊर्ध्व- अणायस्, अक्ष°, अधस्,
२कन्द°, तद्°, तिर्यच्°, पृष्ठ°,
लम्बिका°, शक्ति°, सर्व°, सहस्रि-
...ण°
+ऊर्ध्व-कुण्डल- राजदन्त°
ऊर्ध्व-ग- गः योशि ६, १६;
[०ग- फाल°]
+ऊर्ध्व-उवल्लन- पवना...
१ऊर्ध्व-पुण्ड- क्षीर°, त्रिपुरद्व°,
प्रणवमय°, लसत्°, १शङ्ख°,
ऊर्ध्व-भाग- करठ°, तालुमुल°,
१बीज°, हृदय°
+ऊर्ध्व-स्कन्ध- तद्°
+ऊर्ध्वो(र्ध्व-अ)घस्->ऊर्ध्वाघः-
संस्थित- तौ योच् ३१.

ऊर्मि- पयप्राण°, पृ°
√ऊप् (वोहे)->२ऊष्मन्- २आज्य°,
उभय°
√ऊह(प्रापणे) अप°, निर°, प्रति°,
वि°, व्यप°, राम्°
+१ऊह- सम्°
+१ऊहन- वि°
+१ऊद्य अप°, निर°, प्रति°, व्यप°,
सम्°
√ऊह(वितर्के) अप°
२ऊह-
२ऊहन- अप°
२ऊद्य°
ऊद्य- अन°

ऊ

√*ऊरु, ऊरु आ°, उद्°
ऊरु(च्य)->ऊर्या- यद्°
१ऊरु- अन्°
ऊरु-सुञ्ज- -भुक् मै २, ११?
ऊरु- निर°
ऊरु- -०तवः कौ १, २°. [०तु-
प्रीम्, पत्न°, वर्षा°, १वसन्त°,
शरद्°, पृष्, सतन्°]
आतव->+आतवा(व-आ)-
लेपना(न-आद्य)->दया- -दया
सौ १, २.
ऊरु(तु-इ)ञ्- महत्°
ऊरु- चन्द्र°
+ऊरु- अन्°
√ऊरु->ऊरु- अन्°, गार्धार्थ°,
आनुष्ठम्, तत्व°, पथदशन°,
२वेद°, ६स°, सामन्°
+ऊरु- अर्थ°, एक°, कलि°,°

चतुदशीन्, त्रि°, द्वि°, यहु°, स्व°
+ऊरु-त्रिरु-निहृत्कि- -पद्या गोच
६७:३१°.
+ऊरु-आत्मक- -कस्य सौ १, १.
√ऊरु->ऊरु- अन्°
आजैव- अहिंसा°°
ऊरुनीप->ऊरुनीपिन्- शक°
ऊरुण- अन्°
+ऊरुण- अन्°
√ऊरु सम्°
ऊरु- २योग°, सम्°
ऊरुमु- श्वेतकेतु°, २संवर्तक°°
√ऊरु(वधा)->ऊरुम- १पुरप°,
३भरत°, श्वेतकेतु°, पञ्ज°,
हरितन्°
ऊरु- -विः मना २, १२, १९°.
[०पि-अन्°, आनन्दादि°, एक°,
क्षत्रिय°, २मह°, १छन्दस्°,
१देव°, १देव°, नाना°, परम्°,
१महान्, २मतप्र°, मनुष्य°,
मदन्°, राजन्°, १विध°, १वैखान-
नस°, सतन्°]
+ऊरु-ऊरु-देवता-तत्तद्गणा-
(ए-अ)वर्णा(ए-अ)वस्थान-
-नम् रार १, ७.
ऊरु-ऊरु-देवत- १ययोह°
+ऊरु- ५स°

ए

ए[आ/इ(गती)], एहि वृ ६, ४, १९९°.
ए[आ-इ]त्- यथा°
एक- -०क तां २१६: १२; -कः श्वे
२, ४९; ३, २९; अशि ५, ३९; ३
-कम् वृ १, ५९. [०क-

a) वैपश् यद. । b) तु. गप्, पृ३२६। । c) गप्, (पृ१९८) यनि. संख्यानिर्देशः द्र. । d) धरित°
इति पा.३ यनि. शोधः द्र. (तु. मैत्रि २, ७) । e) गप्, (पृ१९९) सस्य. °तवः (प्र३) इत्यत्र यनि. शोधः द्र. । f) वधा.
द्र. । g) =भालु-, २तारा- । h) गप्, (पृ२८३) सस्य. 'गोवीकन्दनसृत्तिकाविरुक्ति- > -त्वा' इत्यत्र यनि.
शोधः द्र. । h) 'कविः' इति मैसं छ, १२, ६ (तु. टि. वैपश् यस्या.) । i) द्रस.>पस. । j) वा. क्वि. द्र. ।
k) 'इह' इति शौ १४, २, ७१ (तु. टि. वैपश् यस्या.) । l) अद् ५, ८१, १ (तु. टि. वैपश् यस्या.) । m) तैसं १, ८, ६, १ ।
n) विशिष्ट इह अ. (२, २३, १) पाने. (तु. टि. वैपश् यस्या.) ।

अक्षरं, अन्, अनुभव, अधगतपिगतं, अव्यक्तं...न्दं, असंकल्पनमात्रं, आनन्दस्वानुभवं, एकं, इकालं, क्षणं, शानं, ज्ञेयं, देहं, द्विनिमित्तं, ध्वेयं, ५नं, नारां, १नित्यं, नित्यानन्दं, पदार्थं, परत्र...न्दं, परमानन्दं, परमार्थं, परिज्ञानं, परिपूर्णं, २पिङ्गं, २पिङ्गलं, १पूर्णानन्दं, प्रकाशं, प्रणव्यं, प्रति, प्राणायामं, बोधानन्दं, १ब्रह्मानन्दं, १भावं, भूपुरं, १योगं, मन्, १भोक्तृ, १भोक्तृमार्गं, भोक्तृानन्दं, २योगं, लक्ष्यं, लव, लोक, विशामन्त्रं, विभागं, वेदा...न्व, संकल्पं, सत्तामा...शां, सदान...व, सन्मानं, सतदशनं, संसृष्टानन्दं, सार्धवर्णं, १सोमं, स्वप्रकाशं, स्वभावं, स्वानुभूतिं] एक्य-अयम् गोपु १. [०क्य-आत्मन्, उभयं, जीवब्रह्मन्, जीवा...त्मन्, तत्त्वपदं, तद्, परावरं, परिपूर्णं रमन्] १ब्रह्मन्, लिङ्गं, शिवानन्] १देव-भक्त-नित्यशुद्ध...व
 *एक-करण-चित्तं
 *एक-कल-द्वारत-रतिकानन्दं
 *एक-कारण-१भोक्तृ
 *एक-गुरु-स्वानिमित्तं
 *एक-जन-आनन्दं
 *एक-विद्-सन्धिदान-दाद्वैतं
 एक-जननी-सर्वं
 एक-सा-चन्द्रसूर्यं, परजीव, १ब्रह्मन्, सदा
 *एकता बुद्धि-दि-१कौलधः१

एक-तान-चेतनं, २चेतन्यं
 *एकतान-ता-तद्, प्रत्ययं
 एक-त्व-आत्मन्, १चित्, परिष्णामं, १ब्रह्मन्, १ब्रह्मन्, समरसं
 एक-देश-कक्षरत्न...सं
 एक-धा-५नं
 एक-निष्ठ-स्वात्मयोगं
 एक-पा(द)>द्-वीरभद्रं
 एक-पाद-१ब्रह्मन्
 *एक-पाश-२विरवरूपं
 *एक-मात्रक-एकभागं
 *एक-मार्ग-५नं
 एक-मूर्धन्-धर्मा अशि ६, ११०.
 *एक-मोहिन्-सर्वलोकं
 एक-रस-सम् नृप १९६: १४४.
 [०स-अक्षरत्न, अक्षरदानन्दं, अनुज्ञा, अवबोधं, एकान्तं, १चित्, १चिदानन्दं, चिद्रूपं, प्रत्ययं, २सन्धिदानन्दं, १सत्, १सत्, सदा]
 २एक-रूप-आनन्दं, तद्, ५नं
 एक(क-श्र)र्षि-००र्षे वृ५, १५, १५०.
 *एक-रूपक-कम् शि ६, १२३.
 *एक-विंशत्-२कुलं
 *एकविंशक-२कुलं
 *एक-सौन्दर्य-सर्वलोकं
 *एक-रूपलिङ्ग-अतिनि...शा
 एक-स्वरूप-चिन्मात्रं
 २एका(क-श्र)शर-अव्यक्तं, कठ-वलीं, वृसिद्ध, सौभाग्यपरमं, हयमैत्रं
 एका(क-श्र)प्र->एकप्र-ता-सर्वायंता
 एकाग्र-चित्तं, सत्त्वशुद्धिं
 एका(क-श्र)रमन्-चिन्मात्रं
 *एकारम्य-१समं

*एकारम-दाशिन(न)नी-नी महा ५, १०१.
 एक(क)का-दशन्-१हृदं
 एकादश-रुद्र-अष्टवसु
 एकाद(श)>सी-शी तु १०१.
 *एकादशिन(क)>का-१शिवं
 एका(क-श्र)धिक-शत-अयवैशि...कं, उपनीतं, गृहस्थं, रुद्रजापकं, वानप्रस्थं
 एका(क-श्र)स-परमं
 *एकान्त-विसर्जन-हेयं
 *एकान्त-व्योमन्-१हृदं
 एकान्त-शील-आनन्दं
 *एकान्त-संविद्धि-अन्तं
 एका(क-श्र)यन-चित्तं
 *एका(क-श्र)वन्->एकादिक->एकादिक-२२२-अतिभयंकर-ज्वरं
 एकी/हृ->एकी-करण-परिपूर्ण-सं, लक्ष्यरूपदं
 एकै(क-ए)क-श्रीमायामन्यं
 *एकी(क-उ)ज्वल-अतिनि...शा
 *एज, एजतु वृ ६, ४, २३५.
 एजन्-अन्
 एतद्>एव, ता-ताभिः नार ५.
 एवा-वय->*एवावत्-स्व-प्रकृतं
 एतव्य-√इ(अप्ययने) इ.
 एध-√इप-न्द्.
 एनस्-नः मना २, ५१५; नसः मना २, ५१५. [०स-प्रति, विगतं, सर्वं]
 एय-√इ(मती) इ.
 एला-आन्
 एव,>वा वृ ६, ४, २३५; ये ३, ८५; ६, १५५; गी ३, २४.

a) प्रान. अया. । b) तु. गपु. ५९०१क । c) ०र्षा इति प्रान. । d) निता. अया. । e) गपु. (स २०५८) 'का ४, १०, १६' इत्ययं 'का ४०, १, १६' इति शोधः इ. । f) विज. वा तदारभ्योपनिषद्विशेष- वा । g) ०शा इति पा. १ यति. शोधः इ. । h) श्र ५, ५८, ७ । i) पा. १ 'ताम्' इति शोधः इ. । j) तैत्तिमा १०, ५९. । k) तैत्तिमा १०, ५९. । l) मा ३१, १८ (तु. ति. वैश १ यस्या). । m) 'इव' इति SCMR. पणे. (वैतु. वे. (STA २, २११)) ।

एवम् अन्, २° इति°
 एवं-विद्- अन्°
 एवं-वि(ध>)धा- -धा प्रिता ३, ५°.
 १एय- ✓इय् (गती) द.
 २एय^०- एतद्- द.
 ३एयण- ✓इच्छ्, इय्(इच्छायाम्) द.
 २-३एयण- ✓इय्(गती) द.
 १एय्य^०- ✓इच्छ्, इय्(इच्छायाम्) द.
 २एय्य^०- ✓इय् (गती) द.
 १एय्यत्^०- ✓इ (गती) द.
 २एय्यत्^०- ✓इय् (गती) द.

ए

एकात्म्य- एक- (परि.) द.

ओ

+ओ(क>)का^०- २जल°
 ओघ- अघ°, १कण्, गुण°, २जल°,
 तनु... चमन्°, दुःख°, दुष्टत°,
 पयदुःख°, पातक°, १पाप°, भूल-
 पदाय°, रत्न°, २वासना°, विप्र°,
 व्यसन°, व्यापार°, सिंह°
 ओजस्- अभिभूति°, अमित°, उताम°,
 सत्त्व°, स्व°
 ओदन- उद°, सीर°, तिल°, २दधि°,
 मांस°, सिद्ध°
 +ओ(धा/ऊ)य्>ओ(धा-ऊ)य्-
 -ता ए २.
 ओपधि, धी- -धयः, -धीभ्यः कुं २ ३ः
 १°. [°धि, धी- अन्°, आ-
 गन्°, २जल°, जन्मन्°, तृष्ण°,
 तृष्ण°, १प्रल°, रस°, लता°,
 वन°, वृत्त°, सर्व°]
 ओषध- मन्त्र°, १रति°, सर्व°
 ओषधि-वनस्पति- अष्टपच्य°

ओष्ठ^०- अपर°, दन्त°, पुण्यापुण्य°,
 चिम्ब°, लम्ब°, गुणाम°
 +ओष्ठ-शूल^०- शिरःशूल°

औ

औदार्य- उदार- (परि.) द.
 औक्षत्य- उद(द/ह)न् (परि.) द.
 औषम्य- उप/मा(माने) परि. द.
 औशिज^०- अशिश- द.

क

१-२क- गपू, ५२, १२ द.
 ३क- ४अ°
 २कंस->कारव^०- ताम°
 कक्ष- अघि°, उप°, प्रति°, ४याम°
 +कक्ष-शूल^०- शिरःशूल°
 कक्ष्य- उरग°, फण्णिन्°, भुजग... द°
 ✓कक्ष्(°वधा.)>कङ्कण^०- २कर°,
 केयूर°, सातित°
 कङ्काल->ली- अरिष्टकारिणी°
 +कङ्काल^०- ६स°
 ✓कच् वि°
 +कच^०- वि°, विलसन्°
 कच्छ-> १कच्छ-य^०->+२कच्छ-
 य^०- २मतस्य°
 +कञ्जल^०- केरा°
 +कञ्जल(क)>लिका^०- कपिला°
 +कञ्जुक^०- मोह°
 ✓कट्(°वधा.) प्र°, संप्र°
 १कट^०- जीण°, प्र°
 २कट->कटा(ट-अ)क्ष- उत्तर°,
 १काम°, १कृपा°, १दक्षिण°,
 मन्द्°, सद्गुण°, हाव°
 कटक^०- केयूर°, पर°, मणि°, २वाम°

कटि, शी^०- उरगु°, ऊर्ण°, गुद°,
 गुल्फ°, जामु°, १त्वन्°, २दक्ष°,
 १दक्षिण°, देहमन्°, पृष्ठवर्ण°,
 प्रोक्तमन्°, धोत्र°
 +कटि-वेदा- मदी°
 +कटि-शूल^०- अत्रयन्°,
 शिरःशूल°
 कटि-मृत्^०- दण्ड°, दण्ड°
 +कटित- प्र°, संप्र°
 +कटितवर्- प्र°
 कटु- मधुर°
 +कटाह^०- अण्ड°, कुम्भ°
 +कट्य>ट्या^०- रय°
 ✓कर्(°वधा.)>कट^०- ईसा°
 +कट(ह्रस्व!)^०- कटवल्ली°
 +कटोर- बहु°
 ✓कर्(°वधा.)>१कण^०- अग्नि°,
 अम्यु°, अग्नि°, सुतिल°
 करणक->गिका- जलयन्त्रशी-
 कर°, दीप°, वट°
 २कण->णा^०-
 ✓कण्ट(°वधा.)>कण्टक- २असि°,
 २जल°, दुःख°
 कण्टकिन्- आम°
 ✓कण्ट्(°वधा.)>कण्ट^०- आ°,
 आस्य°, उद°, कणेल°, कम्पु°,
 ३कल°, कलहलपित्राल°, ४काल°,
 नाभि°, १नील°, मस्तक°,
 ललाट°, ललाट°, धी°,
 २मुस्वर°, सोमेन°, १हृद्°
 कण्ट-कृप- पाद°
 +कण्ट-पर्यन्त- हृदयादि°
 +कण्ट-शूल^०- शिरःशूल°
 ✓कराड्>क (एङ्) षड्->✓क-
 षड्यु->+कषड्यन- देह°

a) धाय इति अत्र्या. संटि । b) गपू. (५२१०) यनि. संख्यानिर्देशः द. । c) गपू. (५१६२, २१०) यनि. संख्यानिर्देशः द. । d) व्यु? । e) अत्र्याः सं. अत्रा. । f) गपू. (५२१२) यनि. अन्वेषितं द. । g) व्यु? =फलविशेष- । h) =भाप. वा केश- वा । i) गपू. (५२१३) यनि. संख्यानिर्देशः द. । j) =अवतारविशेष- । k) =गोविशेष- । l) व्यु? =वस्त्र- । m) =भाप. वा किलिङ्गक- वा । n) व्यु? =कृत्वा- (=कर्मन्-) । o) =तदाख्योपनिषद्- विशेष- ।

√कत् > रक्त^१ > काश्य^१ > का-
र्यायन^१ - रनिदाष^१
१-रकति^१ - किम् - द्र.
√कथ्, कथ्यते पठं छ.
कथन- अध्यात्म^१, पादभेदादि^१,
ब्रह्मस्वरूप^१, मद्^१
१कथा- ४अ^१, अनुभव^१, जीवेश^१
कल्प^१, तद्^१, तल्लीला^१, रदर्शन^१
ध्यान^१, बहुशास्त्र^१, भगवत्^१,
महायज्ञ^१, रतिसेवा^१, रलीला^१,
१सत्^१, सेवा^१, स्त्री^१
+कथा-धर्म-दान-व्रत-तीर्थ-
अन्य^१
+कथा(या-आ)लाप- हरि^१
+कथा-सेवा- यदच्छा^१
कथित- -तः नाप ५, १७.
कथ्य- ४अ^१
√कद् > कद् > कद्म्य^१ - भाष^१
कद्(ल>)ली^१ - भाष^१, पलारा^१
कन्तुक- नारायणकौडा^१
√कन्ध(आवरणो) > कन्ध > न्या^१ -
कौपीन^१, कौपीन^१, धैर्य^१, बहु-
शास्त्रकथा^१, शिखादि^१
+कन्धा-वेदा- -शः नाप ५, १९.
√कन्द > १कन्द- अनन्तप्र^१पि^१,
कपाल^१, १कमल^१, नाभि^१, पत्र^१,
पीठ^१, ब्रह्मानन्दरामपि^१, १मूल^१
२कन्द > कन्दा(न्द-अ)धम्(>)
यो १, ६१.
+कन्दर- विरि^१, २धरणीधर^१,
शून्यागार^१
१-२कन्य- गप्. पृ २१७ द.
१कन्यका^१ - २कन्य- द.
३कन्य > न्या > कन्य-कुमारी-
-रि मना १, ७६.
४कन्य > न्या- गप्. पृ २१७ द.
५कन्य > न्या- भगिनन्^१, गन्धर्व^१,

गोप^१, १देव^१, १नाग^१
+२कन्य-क(>)का- ऋषि^१, कैवर्त^१,
चौरसागर^१
कपाट^१ - महावज्र^१
कपाल^१ - अष्टन^१, अल्ल^१, आण्ड^१,
गुरु^१, चण्ड^१, चतुर्^१, त्रि^१, द्वाद-
शन्^१, शक्ति^१, शीर्ष^१
कपालिन्- चन्द्रकोधोन्मत्त^१
१कपि- दुष्टक्रीड^१, महत्^१
२कपि > कपि-श- कनक^१
३कपि > कपिला- अरवत्य^१
१कपिल- गप्. पृ २१७ द.
२कपिल^१ - २वसिष्ठ^१, रनिदाष^१,
सनक^१
+कपोत^१ सर्प^१
कपोल^१ - तद्^१, तद्द^१, १त्वन्^१,
पृष्ठवंश^१, प्रति^१, १पदकोण^१
+कपोल-वाणी- मृदु^१
+कपोल-शूल^१ - सिर शूल^१
कफ^१ - अस्थि^१, विष्^१
+कफा(फ-आ)घ(दि-अ)गल- ब्रह्म-
नाडी^१-रथ^१
+कघरी^१ - अगुरुवासित^१
√कम् > कामि अभि^१, प्र^१
+कमन- > +कमनीय- अत्रशो-
भा^१, सौभाग्य^१
कान्त- उमा^१, कालाम्बोधरकान्ति^१,
चन्द्र^१, परम^१, मन्त्रु^१, रुक्मिणी^१,
लक्ष्मी^१, शशिन^१, सु^१, १सूर्य^१
कान्ति- कालाम्बोधर^१, तदित्यो-
न^१, तद्वह^१, २तारा^१, लक्ष्मी^१,
विदुम^१, २रयाम^१
+कान्ति-विशेषा(प-आ)वर्ष-
निरतिशयानन्द^१
१काम^१ - मः गा २४. [म- अ^१,
आप्त^१, अन्नरालोक^१, अभाय^१,
अन्य^१, अभि^१, अर्थ^१, आत्मन्^१,

आप्त^१, आयुस्^१, आरोग्य^१, १इष्ट^१
१काम^१, १कोटि^१, १चुध^१, गन्ध-
माल्यलोक^१, गीतवादित्रलोक^१,
गो^१, प्राम्य^१, चन्द्रलोक^१, चोदित^१,
जल...संपात^१, जित^१, जीर्ण^१,
जीवत्^१, जीवितुम् > तु^१, ज्योतिस्^१
गुप्ति^१, तेजस्^१, त्यक्तुम् > तु^१,
१देव^१, देवमत्त^१ ना^१, धर्म^१,
धर्म^१, पातु^१, निन्दा^१, निस्^१,
नेत्र^१ त^१, पर्याप्त^१, पितृलोक^१,
१पुत्र^१ पुष्टि^१, पृथिवी^१, प्र^१,
प्रजा^१, प्रसा^१, प्रशसा^१, प्रस्फुति^१,
ब्रह्मलोक^१, २भक्त^१, १भूति^१, प्रा-
लोक^१, मनुष्य^१, मल्लोक^१, मातृ-
लोक^१, मुक्ति^१, मुख्यशीत^१, १मे-
धा^१, मद्^१, यथा^१, सोढुम् > तु^१,
लब्ध^१, वरुणलोक^१, वरा^१, वायु-
लोक^१, विज्ञप्त^१, विनिश्चत्^१, रागिन्^१,
१शिव^१, शिवाय^१, शुभ्रपा^१,
शी^१, शैवस्^१, शोढुम् > तु^१, १एव^१,
सकल^१, सत्तिलोक^१, १शक्त्य^१,
सर्व^१, सर्वोक्त^१, सु^१, सुरतकला^१,
सूर्यलोक^१, सपुत्रु^१ > तु^१, स्त्री-
लोक^१, स्व^१, स्वर्ग^१, १स्वर्गलोक^१,
स्ववरायुक्ति^१, स्वयलोक^१, हर्ष^१]
+काम-कटाक्ष- धीमत्^१
काम-कला- उपकरण^१
कामकला(ला-आ)लय-
शक्ति^१
काम-कार- ४अ^१
+काम-कामुक- १विजय^१
+काम-केलि-कौतुक-रति-राम-
विनोद- आनन्दमय^१
+काम-शोध-शोभ-मोह-मप-
सुख-दुःख-लज्जा(जा-अ)लज्जा-
(जा-अ)गान-मोह-मसहरा-
(र-मा)दि- देवत्रनि^१

a) गृ. (पृ २१४) यनि संख्यानिर्देशः द. । b) अघ्याः सं. घषा. । c) न्याले इति अघ्या. । d) दु.
गृ. ३७११ । e) म्यु. ! =गृदा- । f) गृ. (पृ २१७) यनि. संख्यानिर्देशः द. । g) न्याय इति मउ ३, १२ ।
h) म्यु. ! =वेशिवा- । i) गृ. (पृ २१८) यनि. संख्यानिर्देशः द. ।

काम-चार- ४अ°
 काम-धेनु- कल्पद्रुं, पारवा-
 धःस्थित°
 +काम-मनोरथ- अति°
 +काम-माला->काममालि-
 (नृ<>)नी- न्यै मउ ३, १४.
 +काम-रस- संयोज्यमाण°
 काम-राज- धी°
 काम-रेके(फ-इ)न्द्रा-समष्टि-
 रूप->कामरेकेन्द्रासमष्टिरू-
 वि(नृ<>)णी- णीम् दया १.
 +काम-सुख- सर्व°
 २काम-सु(ख<>)ख(र्)-
 +काम-वृत्त- ४अ°
 +कामा(म-अ)कर्षिण्या-
 (णी-आ)दि-पोद्वा-शक्ति-
 -कथः भा १४.
 +कामा(म-अ)ह- दग्ध°
 +कामा(म-अ)घा(दि-आ)क-
 पिणी-पोद्वाक- ६स°
 +कामा(म-अ)र्ध- सर्व°
 १कामिक°-
 कामे(म-ई)धर- नः भा २७°.
 कामेश्वरी->+कामेश्वर्या-
 (री-आ)दि-शिक- ६स°
 काम(न<>)जा- ४अ°, ऐरवर्थ°
 कामवमान- ४अ°
 *कामि->२कामि-(क<>)का°-
 -का नापु ५, २६.
 कामिन्- ४अ°, १काम°
 कामिनी- दैर्य°, भूत°, सकल°
 १कान्य°- ४अ°, निस्, ३भद°, ६स°
 +काम्य-रहस्य-पूजा- सर्व°
 +२काम्य<>भ्या- लोकायुष्म°
 कामण्डलु°- लुम् पहं १५०: ८°.
 [०]लु- उदकस्थल°, जलस्थल°,
 १त्रिदण्ड°, दण्ड°, पर्जा...क्षि°

पाश°, शिष्य°, ६स°, संतता-
 चि°, सुचु°]
 +कामण्डलु-धर- नाय मउ ३, १८.
 १कामल- अरण्य°, २कर°, २चरण°,
 नाभि°, पद°, प्रकुलल°, २पोद्वा-
 दल°, राहण°, सूर्यवंशिन्°, गोमवं-
 शिन्°, शफटिक°, स्वर्णशिंशासन-
 मय्य°, हृदय°
 √कम्प>मिप अतु°, आ°, प्र°, वि°,
 विनिस्°
 १कम्प- गात्र°, वि°, विनिस्°
 +२कम्प<>भा- भगु°
 +कम्पित- प्र°, वार्धक°
 +कम्पितुम् वि°
 कम्पल°- कौमुम्भ...रक्त°
 १कर->१करिन्- नी योशि १, ११७
 २कर-
 ३-धकर- √क(करणे) परि. द्र.
 ५कर- √कू(विक्षेपे) परि. द्र.
 १करक-
 २करक°- तरङ्ग°
 +करक्ष- आपद°, सर्पप°
 १-२करख- गपू. पु२२२ द्र.
 ३करख- √कू(विक्षेपे) परि. द्र.
 +करण्डक- पुष्पाधार°
 कराल- दंष्ट्रा°, बहुदंष्ट्रा°
 १करिन्-
 २करिन्- √क(करणे) परि. द्र.
 करुणा- निस्, मैत्री°, वि°
 +कारुणिक- परम°
 काहण्य- महत्°
 कर्कोट-
 कार्कोट->+कार्कोट-क-
 दैत्य°
 कर्कोट-क- अनन्त°
 १कर्ण- शंयोः ह २०५^k. [र्ण- ४अ°,
 गो°, जवु<>पू°, तालु°, १दक्षिण°

२यधु°, १भद्र°, मणि°, १धाम्य°,
 लसन्°, २वाम°, विस्वतन्प°,
 शङ्कु°, शिरस्°, १राच्य°]
 +कर्ण-भूषण- रत्न°
 +कर्ण-रन्ध्र-द्रव्य- तर्ज...लित°
 +कर्ण-शूल°- अन्नशूल°, शिर-
 शूल°
 +√कर्मि आ°
 +कर्म्य आ°
 २कर्ण->२कर्णक<>गिर्का- अन्व°
 तत्पत्र°, तर्तीठ°, तद्°, तन्मय्य°,
 पीठ°, प्रथम°, पीडशस्°, हृदयम्,
 हृदयकमल°, हृदयपुराणरीक°
 फर्तन- √कृत् (परि.) द्र.
 फर्तव्याकारणादिकर्ता^१ हंपो २०.
 फर्तिका- √कृत् (परि.) द्र.
 फर्दम- आन द°, चित, सर्षिपायस°,
 स्थायु°
 +कर्पट°- गोमय°, मृत°
 कर्पास->कर्पास->+कर्पास-
 तन्तु-कृतो(त-उ)पवीत-
 केरासमह...त्त°
 कर्पूर°- अगुरु°, अन्तःसुगन्धतैल°,
 केसर°, दग्ध°, लवण°, हञ्°
 +कर्पूर-रस- मृगमद°
 +कर्पूर->+कर्पूरित- अर्धच्छाया°,
 शुभ्र°
 √कल्>लि सम्°
 ३कल- १कोमल°
 +कल-रव- वेणुवादन°
 कल-शब्द- नाग°
 +१कलन- इतरकला°, इष्टानिष्ट°,
 कला°, कुक्षिस्थानेकलोक°, भेद°,
 वि°, विकल्प°, विश्वभेद°, संसार°,
 संकल्पमात्र°, सम्°
 २कल(न<>)ता- अन्य°, अशेष°

a) सस. । b) गपू. (पु२२१) यनि. संख्यानिर्देशः द्र. । c) तान्त्रि. अया. । d) =हरिकलाविशेष- ।
 e) निसा. अया. । f) गपू. (पु२२२) यनि. शोषः द्र. । g) व्यु. ? =शुण्डादण्ड- । h) व्यु. ? =वर्षापल- । i) व्यु. ?
 =वृक्षविशेष- । j) व्यु. ? । k) तैआ १०, ७, १ । l) पा. ? तकस्या° इति शोषः द्र. । m) व्यु. ? =वह- । n) व्यु. ?
 =वर्णविशेष- । o) गपू. (पु२२४) यनि. संख्यानिर्देशः द्र. ।

सकल्प°, २काल°, चिन्मनस्°,
 हरय°, प्रशान्त°, वनधमोत्°,
 १भावं°, १रति°, विभाग°, शान्त°
 संकल्प°, सर्वेच्छा°
 *कलना-कलङ्क- व्यपगत°
 कलित- चिचैत्य°, दिवाकाल°, मोह-
 गुणजाल°, विकल्प°, वेणु...प°
 कलङ्क- २कलना°, कला°, निस्°
 *कलङ्क-मय- निस्°
 *कलङ्का(ङ्-अ)ङ्क- अणुहीत°
 *कलङ्कित- चिन्तादर्शी, बहुपङ्क°
 कलत्र- गोत्र°, धनं°, १पुत्र°, १प्रदा°,
 संप्रसूत°, २सुत°
 कलश°- अमृत°, आनन्द°, त्रि°,
 १श्रेण°, वितान°
 कला°- लः नापू ५, ३, [ला- ४अ°,
 संश°, अकार°, अमित्रय°
 अनेक°, अभिनव°, अमृतार°,
 अविद्या°, असंसर्ग°, अहंकार°,
 १भादि°, आनन्द°, १द्वार°,
 इन्द्रिया°, १काम°, कामकेलि°,
 केलि°, १कोमल°, क्रीडा°,
 गूढकेलि°, चतुर्°, चतुर्था°, चन्द्र°,
 १चिद्र°, जीव°, तत्त्व°, वृत्तीय°,
 तेजोविद्या°, हरान्°, नाद°, नाद°,
 निस्°, नृत्य°, पञ्चन्°, पञ्चमी°,
 प्रति°, विन्दु°, १ब्रह्मानन्द°,
 भावाभाव°, मदन°, मन्मथ°, यम-
 नियम°...हार°, १रति°, रतिकेलि°,
 रस°, रासकेलि°, वसु°, वहि°,
 वहिसोम°, वागर्थ°, वि°, विद्या°,
 विपरीतसुखदृश्य°, विविध°, वै-
 प्लव°, शशिन्°, साख°, १श्वभार°
 धी°, पर्ण°, पट्टी°, पोड्यार°, ६स°,
 सकल°, संगीत°, मसन्°, सहस्र°,
 २सुगन्ध°, १सुरत°, सूर्येन्द्राप्रि°

सोमह्वय°, स्फटिक°, हस्त°]
 *कला-निमेष- २काल°
 *कला-भाव- १रति°
 *कलाप°- चन्द्रकला°, जटा°, वेणु...
 रव°
 कलि- निर्भूत°
 *कलि-संतारण°- कठवल्ली°
 कलिल- १पाप°, मोह°
 कलेचर- प्रिय°, ६स°, साज्ञोपाज्ञ°
 *कल्क°- ४अ°
 कल्कि- २मत्स्य°
 १-६कल्प- ✓कल्प (परि.) द्र.
 *७कल्प°- अध्यात्मब्रह्मन्°, आकाश°
 *कलमप°- ४अ°, कलि°, क्षीण°,
 ज्ञाननिर्भूत°, ल्यङ्क°, नाना°, निर्भू-
 त°, निस्°, यज्ञक्षपित°, विगत°,
 १वीत°
 कल्याण- ४अ°, अत्यन्त°, परन्°,
 सहस्रकलावयव°
 कल्याणी- स्वयंवर°
 *कल्याण-गुण- निरतिशय°...यन्त°
 कल्याण-तम- सम् ३ ५, १५,
 १९°
 कल्लोल- अनन्तचित्सागर°, अच्युत°,
 आनन्दामृत°, कामाक्षि°, कालि-
 न्दीजल°, २जल°, सरङ्ग°, यमुना-
 जल°, १रति°, रस°, लावण्यवा-
 दिनी°, सितजल°, १युजल°
 *कल्लोल-रुमन्- जलकेलि°
 *कल्लोल-तरङ्ग- अनन्त...विध°
 कवच- महावज्र°
 *कवच-दिग्बन्धन-मन्त्र- मूल-
 मन्त्र°
 *कवल°- अष्टन्°
 कवाट- चन्द्र°, १संत°
 कवि-

काव्य- तर्क°
 कवि-रव- धन°, १पुत्र°
 कश्मल- झेरा°
 कश्मीर-> १कश्मीर°-> १२का-
 श्मीर°- चन्द्र°
 कश्यप- २वसिष्ठ°, २वसिष्ठ°
 ✓कप् नि°
 १कप- नि°
 कपाय- १अह°, अपक°, कङ्क°,
 पक°, मयुर°, मुदित°, ६स°
 कापाय-> कापाय-वस्त्र- १त्रि-
 दण्ड°
 *कापाय-वैश- १त्रिदण्ड°
 कपाय-कुण्डल- वृषा°
 ✓कस् वि°
 *कस-, *कसित- वि°
 कस्तूरी- चम्पक°
 *कस्तूरि-(क>)का°- लता°
 १काक°- सर्प°
 *काक-वृष्ट- ४अ°
 २काक-> काकि(रु>)नी°- भूत°
 ✓काङ्क् आ°
 *१काङ्क्- २दर्शन°
 *२का(ङ्)>का- १गोत्र°
 *काङ्क्- २काल°, २दर्शन°,
 महावचवि...न°, १मील°
 काञ्चन- तप्त°, लोष्ट°, ६स°
 *का(धि>)ञ्जी°- १प्रम°
 काङ्क- ४अ°, अञ्ज°, कदली°, कर्मन्°
 किंया°, वृत्तीया°
 *कातर°- पुत्रविरलेप°
 *कात्येयमति°- १नन्द°
 *कानन्- रौल°, ६स°
 १-२कामिक- ✓कम् (परि.) द्र.
 काय- ४अ°, अमि°, ऊर्ध्व°, श्रवण°,
 २जाति°, नेत्रम्°, पर°, १मनस्°

a) ब्रमा. द. । b) व्यु. । c) =तदाव्योपनिषद्विशेष- । d) पात्र. प्रत्यय-विशेष- (पा ५, ३, ६७) ।
 e) व्यु. । १पाप- । f) गम्. (१२३५) 'का ४, १०, १६' इत्यत्र 'का ४०, १, १६' इति शोधः द. । g) व्यु. । १.
 =प्रास- । h) गम्. (१२३५) मनि. संस्थानिर्देशः द. । i) =केसर- । j) कर्तरी इव । k) व्यु. । =कटिमखला- ।
 l) व्यु. । =अधीर- । m) व्यु. । =गोपविशेष- ।

महत्^०, १वत्^०, १वाच्^०, शिरस्^०,
सकलामन्^०, समृद्ध^०, स्व^०
+ काय-हेतु- प्रातःस्नानोपवासादि^०
+ काय-मनस- पर^०
+ काय-शिरोध(रा)>- १सम^०
+ काय-सर्वा(र्व-अ)ङ्- १वाच्^०
१कार^०-
२कार^०- नव^०
३-४कार- कारित^०, कारिन्^०, कारु-
कारक- √क(करोणे) परि. द.
कारुणिक- करुणा- (परि.) द.
कार्कोटक- कर्कोट- (परि.) द.
+ कार्तस्वर^{१०}- तप्त^०
+ कार्मुक^{१०}- १काम^०
१काल- गणू. पृ२२० द.
२काल- लः हं १३२:१. [०ल-
४अ^०, अनानन्द^०, अन्त^०,
अभ्यास^०, अर्क^०, अल्प^०, आतुर^०,
१आदि^०, आपद्^०, आसन^०,
उत्क्रमण^०, उन्मेष^०, उपनयन^०,
श्रुत्^०, एक^०, कर्मन्^०, कलाकाष्ठा-
दि^०, कलि^०, २काल^०, कियन्^०,
यद्^०, धीष्मन्^०, चतुर्थ^०, चित^०,
चिर^०, २जाप्रत्^०, २जाति^०,
तजनन^०, तद्^०, तावन्^०, सुतीर्थ^०,
त्रि^०, दिस्^०, दिस्^०, दीर्घ^०, देश^०,
द्रव्य^०, द्वय^०, निमेष^०, निमेषा-
दि^०, निर्वाण^०, प्रान्त^०, प्रकृति^०,
प्रकृति^०, प्रथमाभ्यास^०, प्रयाण^०,
प्रलय^०, प्रातर्^०, प्राशुर्^०, यद्^०,
प्रज्ञोपदेश^०, माङ्ग^०, भिन्ना^०, विषग्-
प्रदण^०, भूतमविष्यद्दत्तमान^०, १भो-
ग^०, मथ्याह^०, मद्^०, मद्^०, मद्^०, मद्^०,
१युत्^०, यथा^०, १यथायोग्य^०,
१ययोह^०, २योग^०, योगिनी^०,
१ययन्त^०, विदुवायन्^०, दृष्ट^०, शत-

कोटिवत्सर^०, शब्द^०, शरद्^०,
१श्राद्ध^०, श्रीगौतमविवाह^०, संव-
त्सरदि^०, संहार^०, सदा^०, संधि^०,
१संध्या^०, संध्योपासन^०, संन्यास^०,
१सम^०, समाधि^०, सर्व^०, सांप्रत^०,
सुपुत्रि^०, सूर्यचन्द्रोपराग^०, सृष्टि^०,
स्थल^०, स्वप्न^०, स्वाध्याय^०, हंसा-
त्म...ज्ञान^०, हेमन्त^०]
+ काल-(क)- पूर्वोह^०
+ काल-म्यु- अन्न^०
+ काल-विषय- अज्ञात^०
+ काल-शाक्तिका(का-अ)स्त्र- पाशु-
पतास्त्र^०
काला(ल-अ)ग्नि- अथर्वणवे...२^०,
दावानल^०
कालामि-रुद्र- कठवल्ली^०, श्री^०
+ काला(ल-अ)ग्नि-सूर्यो(र्वै-उ)ज्ञ-
-सैः वृत् २, ८?^१
+ काला(ल-अ)नल- उग्रभयंकर^०
+ कालिक^{१०}- ३पीएङ्^०
३काल(ल>)ली^{१०}- कामकला^०, २गुह्य^०,
चिन्तामणि^०, १वह्मन्^०, ६भ^{१०},
मत^०, महत्^०, मेधाएपशमणि^०,
सिद्ध^०, हंस^०
२कालि-(क>)का- ५दक्षिणा^०
√काश्>शि, चाकश् अभि^०, अव^०,
आ^०, प्र^०, संनि^०, सम्^०, संप्र^०
+ ३काश- अव^०, आ^०, प्र^०, संनि^०, सम्^०
+ काशक-, + काशन-, + काशमान-
+ काशयत्- प्र^०
+ काशित- प्र^०, संप्र^०
+ काशि(न्>)नी- १पाप^०
+ काशिग्यमाण-, + काश्य, + काश्य-
प्र^०
चाकशान- अभि^०
१काश- सर्वप^०

२काश- गणू. पृ२२१ द.
१-२काशमीर- करसीर- (परि.) द.
काष्ठा^{१०}- तुलसी^०, तृण^०, पद्माक्ष^०,
युद्^०, लोष्ट^०
+ काष्ठा(ष्ठा)दि- दाह^०
+ का(ष्क>)ष्ठिका- १मङ्गल^०
काष्ठा- कला^०, परा^०
+ काष्ठा-पति- धनदादि^०
+ काष्ठा-सह-जीव-लया(य-आ)-
दिक्-कम् योशि १, १४५.
+ काष्ठीक^{११०}- १वरा^०
+ √कास्>सि वि^०
+ कासयत्- वि^०
कास- १निश्वास^०, निःश्वास^०
+ काहल^{१०}- २घटा^०
+ √कि नि^०
√कित्(ज्ञाने), > चिकित् वि^०, सम्^०
+ केत- सम्^०
१केतु- नुम् वणू १, ५५. [०त-
४अ^०, घृष्ट^०, नमि^०, २धेत^०.]
+ १चिकित्सा-, + १चिकित्सित-,
+ १चिकित्स्य- वि^०
√कित्(०द्योतने) > चिकित्स > २चि-
कित्सा^{१०}, २चिकित्सित^{१०},
२चिकित्स्य^{१०}-
+ √कित्(निवासे) नि^०
+ केतन- नि^०
कितव- दारा^०
किम्-
२क-> + कस्मात् ४अ^०
कथम् > + कथं-ता- जन्मन्^०
किम्-> किं-क- शिष्य^०
+ किं चन ४अ^०
किं-चिद् ५न^०, युद्^०
+ किं-चिद्-विनिमय-पर-
रः नाप ५, १.

a) गणू. (पृ२२०) यनि. संख्यानिर्देशः द.। b) वृ. गणू. पृ४३४। c) व्यु. ? = सुवर्ण-। d) व्यु. ? = पशुम्-। e) निमा. श्या 1। f) 'मिः सु' इति श्याः। यनि. शोषः द. (एतदनु गणू. पृ२२० सत्य. 'कालामि-> -मिः' इत्यप्रापि शोषः द.)। g) व्यु. ? = नागवशेय-। h) व्यु. ?। i) व्यु. ? = याचविशेष-। j) विशिष्ट इह श्र. (२, २३, १) पाभे. (तु. टि. पृ२१ यथा.)। k) गणू. (पृ२२०) यनि. संख्यानिर्देशः द.।

किं-नर- नर^०, पितृ^०, रयत्^०,
 रयत्^०
 *किं-पुत्र- नर^०
 की-दन्-> कीदन्-विध-धम् राार
 २८०: १३^०.
 किर- √ कृ(विज्ञेये) परि. द्र.
 किरण- चंद्र^०, दिनकर^०, सद्दल^०, सूक्ष्म-
 त्त्वत्^०
 किरीट- चन्द्र^०, युमत^०, १शह^०,
 शशिकलाभाभव^०
 किल कौ^० ३, ३.
 किल्बिष- ऊरोप^०, मन्त्रयन्त्रादि^०,
 १मुक्त^०, संशुद्ध^०, सकल^०, सर्व^०
 १किशोर-> *किशोरी- नव^०
 *कैशोर-> कैशोर-कृष्ण- श्री^०
 √ कीद> कीट- आवर्तान्तर^०, क्रमि^०,
 केश^०, दुष्ट^०, १पुत्र^०, १भ्रमर^०
 *कीट-क- १पुत्र^०, १पुत्र^०
 *कीट-पतङ्ग-पिपीलिका- आ^०
 *कीट-पर्यन्त- ब्रह्मादि^०
 कीर्ण- √ कृ(विज्ञेये) परि. द्र.
 कीर्तिमुख- , कीर्त्य √ कृ(परि.) द्र.
 कीर्त्य √ कृ(विज्ञेये) परि. द्र.
 √ कील> कील- चर्मन्^०
 कीलित- नित्^०
 कुम्कुट- १पुत्र^०
 कुक्षि- भज^०, अयुत^०, आत्मर^०, पप^०
 *कुक्षि-शुक्ल- अन्नराज^०, तिर-
 राज^०
 कुङ्कुम- कृष्णगो... दा^०, केलि^०,
 चन्द्र^०, चम्पक^०
 *कुङ्कुम-भार- उष्ट^०
 *कुङ्कुम-बहान- उष्ट^०
 + √ कुप् प्रसप्त^०, व्या^०, सम्^०
 *कुप् सम्^०
 *कोच- प्रसप्त^०, व्या^०, सम्^०

*कोचन-, °चयित्वा, °चित-
 सम्^०
 कुच-> कुच-कुम्भ- उचुङ्गनी^०
 *कुच-भार-> कुङ्कुमसिता^०
 √ कुच्च आ^०, नि^०
 कुञ्ज- आ^०, नि^०
 कुञ्जित-, *कुञ्च्य आ^०
 कुञ्ज-आनन्दमय... द^०, कदम्ब^०, दिश^०,
 नि^०, प्रति^०, मणि^०, वानीर^०,
 रात^०, रातसहस्र^०
 *कुञ्जर^०- अश्व^०, कामदेव^०
 √ कुट्(°वधा.)> *कोटि आ^०
 कुटिल- ४४^०
 कुटिल(ल-आ)कार- सर्प^०
 *कोट्य आ^०
 कुटि-> *की- नि^०, रत्न^०
 कुटी-चक्र- आतुर^०
 कुटुम्ब- त्रैलोक्य^०, १पुत्र^०
 *कुटुम्ब(क)- १वस्त्रानन्द^०
 १कुटुम्बकी-
 √ *कुट्> *कुट्-> *कुटिम^{१०}-सु^०
 *कुडच^{११}- शुक्र^०
 *कुडमल^{१२}- मल्लिका^०
 कुड्य^{१३}- दक्षिणोत्तर^०, पयराग^०,
 रत्न^०, रत्नमय^०
 कुणप- त्यक्त^०
 *√ कुण् अव^०
 *कुण्- ४४^०, भव^०
 *कुण्- भस्मन्^०
 २कुण्ड^{१४}- अमृत^०, गार्हपत्य^०, गोविन्द^०,
 ज्वलन^०, भयाङ्क^०, रसातलपा...
 णी^०, राधा^०, बहि^०, राक्षि^०,
 शिवाभिहोत्र^०
 कुण्डी-> कुण्ड(क)>क्रा^{१५}-
 केन^०, सूर्याक्षय्यात्मन्^०
 १कुण्डल- १अहि^०, ऊर्ध्व^०, १कर्ण^०,

कपाय^०, किरीट^०, प्रैवेय^०, तुष्यो-
 र्घ्या^०, मकर^०, मकराकृति^०, मणि^०,
 रत्नकर्ण... त^०, लसत्^०, सोल^०,
 विविधम... त^०, १शह^०, सुमह-
 चार^०
 *कुण्डल-द्वय- तप्तकार्त्तस्वर^०
 १कुण्डलि(न->)नी^{१६}- महत्^०
 २कुण्डल- गृ. ५२३४ द्र.
 ३कुण्डल- नाभि^०
 कुण्डली-> कुण्डली-शक्ति-
 कन्दोर्ध्व^०
 *कुण्डल्य(ली-अ)ध-ऊर्ध्व-
 भाग- आर्य^०
 २कुण्डलि(र->)नी^{१७}- तत्त्वं,
 मध्यस्थ^०
 कुतुक-> कौतुक- अचिन्त^०, अति^०,
 अशेष^०, १काम^०, कामकेलि^०,
 केलि^०, नाना^०, परम^०, परस्पर...
 कला^०, १रति^०, १रति^०, रति-
 कला^०, रतिकेलिकला^०, रास-
 केलि^०, हाव^०
 *कौतुक-क्रीडा- नाना^०
 *कौतुक-विभ्रम- गत^०
 कुतुहल- रासकीर्ण^०
 कौतुहल- लोक^०
 √ कुत्स्-> कुत्सित-> *कुत्सित-
 कर्मन्- वेदलौकिकमार्ग^०
 *कुन्तल^{१८}- सामिनीनाथलेखालङ्कृत^०
 कुन्द- चम्पक^०, १शह^०
 √ कुप् प्र^०
 दोर- क्रम^०, द्वेष^०, निरवयवत्व-
 शब्द^०, प्र^०
 २कुयेर- इन्द्र^०
 कुञ्ज- १कन्य^०
 १कुमार- भूमि^०, गणेश^०, गपुंसक^०,
 वन्ध्या^०, सनत्^०, सु^०

a) गृ. (२२१) शस्य. *कीदन्-> दन् इत्ययं यनि. शेषः द.। b) गृ. (२२१) शस्य. 'को'
 इत्ययं यनि. शेषः द.। c) स्युः! =इतिर-। d) गृ. (२२४) यनि. संवपानिर्देशः द.। e) वाषा ४, ५, २० (उ-
 वाद्य.)। f) स्युः! =परिमाणविशेष-। g) स्युः! =कलिका-। h) स्युः! =भिनि-। i) =तदास्वोपनिषद्विशेष-।
 j) स्युः! =कुटिलशेष-।

कुमारी- ३कन्या°, ३कुल°, वृषभातु°
 कुमारि(क>)का- सवत्°
 २कुमार(र>)रा- विराजा°
 १कुमुद°- ३भद्र°
 कुमुदा(द-श्रा)क्ष^{1b}- हरि°
 २कुमुद- गण, पु२३६ द.
 ३कुमुद^{1b}- ३जयन्त°, २सुशोक°
 ४कुमुद°- दैत्य°
 ५कुमुद^{1c}-> ६कुमुदा(द-श्रा)जन°-
 ऐरावत°
 कुम्भ¹- उद°, कुच°, पूर्ण°, सूद°,
 मौलिस्य°, १वज्र°, शुभ्राश्रा...
 धृत°, शूद्र्य°, संपूर्ण°
 कुम्भ-क- ईश्वर°, २केवल°
 चतुष्टय°, धृत°, २पूरक°, रेच°,
 रेचक°, २सहित°
 १कुम्भ-कटाहा(द-श्रा)घ- ताम्र°
 १कुल- ४अ°
 २कुल- अस्मद्°, आचार्य°, उपासक°,
 २एकविंश°, एकविंशति°, ३कु-
 ला°, गुरु°, गो°, २जाति°,
 २जाति°, तत्प्रसूति°, तद्°, दाद-
 शन्°, पितृमातृ°, १अन्नन्°, १आश्र-
 ण°, महत्°, स्लेच्छ°, वृशादर्वि°,
 २शिबि°, १सन्°, समस्त°, स्व°
 कुल-ज- अशेष°, समस्त°
 कुल-धर्म- उस्त्रज°
 १कुल-शील- अपरिज्ञात°
 १कुल्य- प्र°
 ३कुल(ल>)ला-> २कौल- राकल°
 कुलाय- विरभर°
 कुलाल-> १कुलाल-शाला- शून्या-
 गा°°
 कुलुम्भ¹-
 कुला- २पुद°

१कुवलयाश्व^{1a}- सुयुम्न°
 १कुचिद्° मल ९, ५.
 १कुश- १काश°, चैल°, चैल°°, दर्भ°,
 शमीन्धन°, ६स°, स्फटिक°°
 कुशाल- ४अ°, करुणा°, प्रमाण°, संगीत-
 साहित्यकला°
 १कुशिक-> कौशिक- घृत°
 कुगीतक-> कौपीतिक¹- ऐतरेय°
 कुष्ठ- १चय°
 कुसीद- ४अ°
 कुसुम- अनङ्ग°, चम्पक°, जटा°, जपा°,
 जवन्ती°, जाजी°, पत्र°, पाटल°,
 मधुक°
 १कुसुम-शुद्धि- जल...न°
 कुसुम्भ-> १कौसुम्भ-> १कौसु-
 म्भ-भाक्षिष्ठ-रक्त-कम्यल-
 लम्ब वउ ६, ३५!
 २कौसुम्भ>म्भा¹-
 कुहक- तर्क°, नैरात्म्यवाद°
 १कुहर¹- कपाल°, नामिह्वर°, शरीर-
 पत्र°, शून्यागार°
 कुह- २यशस्विनी°, सरस्वती°
 १√कृ भा°
 १कृत-, १कृति- आ°
 १√कृज् प्रति°
 १कृजित- सामईस°
 १कूट- १काम°, कामराज°, २काल°,
 चतुर्°, चतुर्थे°, नृवीय°, त्रि°, दार°
 द्वितीय°, पथम°, प्रथम°, सर्वे°,
 पत्र°
 २कूट- २भार°, १चित्र°, तद्वि°, नृण°
 तेजम्°, वामव°, राक्षि°
 कूप- कण्ठ°, रोमन्°
 कूपर- एतद्°
 १कूर्च-> १कूर्च-द्रव- -यम् कालि

८१: ३!
 २कूर्च- गण, पु२३८ द.
 ३कूर्च¹- पत्र°
 कूपर- गल°
 १कूर्पर-शूल¹- शिरःशूल°°
 १कूर्म- १आदि°, आधारशक्ति°°,
 उतान°, २मत्स्य°
 २कूर्म- गण, पु२३९ द.
 ३कूर्म- २नाग°, प्राण°°
 कूल- अतु°, अपूप°, कालिन्दी°, १द-
 क्षिण°, नौ°, प्रति°
 १कूप्राण्ड¹- भूत°°
 √कृ(कारणे), >कारि, चिकीर्ष, कुर्वीत-
 (ईवेन्ति)शिद, १८६; कुर्वाव नाप
 १९९: ३°; ४° [अङ्गी°, अंधि°,
 अतु°, अप°, अपरोक्षी°, *अभि-
 प्रस्थापयाम्°, अभिहित्म्°, अरम्°,
 *अवेचाम्°, अहम्°, आ°, *आ-
 ज्ञापयाम्°, आत्मसात्°, *आम-
 न्नयाम्°, आविसू°, *आसाम्°,
 *आहारयाम्°, ईचाम्°, उदा°,
 उदुद्°, उउम्नी°, उष°, *उपमन्त्र-
 याम्°, उपा°, *उपासाम्°, एकी°,
 ओम्°, *कथयाम्°, क्लृषी°,
 *कारयाम्°, कालसात्°, कुण्ड-
 ली°, कुम्भी°, क्रोडी°, क्षणी°,
 खिली°, *गमयाम्°, *ग्राहयाम्°,
 चतुष्टुषी°, चमत्°, चित्री°,
 चूर्णी°, चेतनी°, तिरस्°, तीर्षी°,
 त्रिष्टुषी°, दृडी°, द्विदली°,
 धवली°, १नमस्°, नि°, निरा°,
 निश्चयी°, निरशेयी°, निस्°,
 पची°, *परिदेवयाम्°, परिषी°,
 परिमली°, परिम्°, पुरस्°, प्र°,
 प्रकटी°, प्रति°, *प्रतिपालयाम्°,

a) व्यु! =रुक्मज- । b) व्यु! =विष्णुपार्षदविशेष- । c) व्यु! =नागविशेष- । d) व्यु! । e) =दिग्गज-
 विशेष- । f) शीतलम् संख्या-चिह्नं परिद्धं द. । g) धम्म. वैर. यद. । h) =तदाक्योपनिषदविशेष- । i) *लघि°
 रति पा.। मं. शोष. द. । j) गण. (१२१८) यनि. संख्यानिर्देशः द. । k) व्यु! =विर- । l) तान्नि. अया. ।
 m) कर्षः । n) वय. द. । =कृत्वा- , स्वतापविशेष- । o) व्यु! =२कूरमाण्ड- । p) पा.। यनि. शोषः द. ।
 q) मन्नाः मं. क्ता. ।

प्रत्युप^०, प्रदक्षिणी^०, *प्रवासाम्^०,
 प्राजली^०, प्रादुस्^०, बहू^०, *बिभ-
 याम्^०, *बोधयाम्^०, भस्मसात्^०,
 भस्मसात्-सम्^०, भस्मी^०, *भूय-
 याम्^०, *मन्त्रयाम्^०, *मापयाम्^०,
 मुकुली^०, मूकी^०, गन्त्री^०, *स्मयाम्^०,
 *स्सयाम्^०, नशी^०, वि^०, विकसी^०,
 विघटी^०, *विदाम्^०, विवशी^०, व्या^०,
 शृङ्खली^०, परमुखा^०, सकली^०,
 संस्^०, १सत्^०, समा^०, समी^०,
 *संपादयाम्^०, संपुटी^०, संघ^०,
 साक्षान्^०, सिंही^०, स्थिरी^०, स्थूली^०,
 स्थूटी^०, स्वधा^०, स्वात्नी^०, स्वाहा^०,
 स्वी^०, हाइ^०, हाउ^०, हिं^०, ३हुं^०]
 २ कर^{१५} - अनन्त^०, अभायकर^०,
 अभायकर^०, अम्बुज^०, भानन^०,
 तालवृन्त^०, तुपार^०, १दक्षिण^०,
 द्वय^०, द्वि^०, १भीम^०, २वाम^०,
 *कर-रक्षण-मुजलता^०,
 *कर-कमल-विराजित^०,
 कर-तल-क्रीडा...क^०, ३वर^०,
 *करतला(ल-अ)म-अमृत^०,
 कर-भ्यास-हृदयावभ्यास^०,
 *कर-पृष्ठ-वरतल^०, तद्^०,
 *करपृष्ठ-शूल^{१६} - शिर-शू-
 ल^०,
 *कर-सुग-१दक्षिण^०, २वाम^०,
 *कर-शूल^{१६} - शिर-शूल^०,
 *का(र-अ)क्षत-प्रक्षेप-जल-
 ...न^०,
 का(र-अ)म-यद्^०,
 *का(र-अ)दुगुली-शूल^{१६} -
 शिर-शूल^०,
 *शुका, री^० - अर्काति^०, अक्षोभ^०,
 अनादि...प्रलय^०, अभायम्^०,
 अभिव्यक्ति^०, २असत्^०, आत्म-
 रक्षा^०, आहारण...श^०, १३धा-
 टन^०, सद्भावन^०, उद्वेग^०, उपा-

यन्^०, कलासरी^०, किम्^०, कुल-
 गोथ^०, कृत्यादिनाश^०, १क्षय^०,
 १क्षुभ्^०, क्षेमम्^०, गङ्गाप्रीति^०,
 गजादिवश्य^०, वित्तशुद्धि^०, १वि-
 त्^०, जगत्पट्टि^०, तिरोधान^०, दाह^०,
 ३, दिव्यताप्रीति^०, धर्मप्रा-
 ति^०, निशा^०, निःश्रेयस^०, १पद्म^०,
 परसन्त्र...च्छेदन^०, पुनर्जननभोग^०,
 पुनर्जन्मन्...पुष्टिशुद्धि^०, पूर्य-
 बोध^०, प्रभा^०, प्राणिवाधा^०, प्रात-
 कर्मन्^०, प्रीति^०, १बन्ध^०, ब्रह्मप्राप्ति^०,
 ब्रह्मनन्द^०, भयम्^०, भावाभाव^०,
 भास्^०, भूतनाश^०, भूतपशान्ति^०,
 भूतभावोद्भव^०, १भूति^०, १मधु^०,
 महद्गुप्ति^०, महासिद्धि^०, मुक्ति^०,
 स्युनाशन^०, १भोक्तृ^०, मोह^०,
 गो-विघ्न^०, योगवृद्धि^०, गोविन्द-
 प्रिय^०, २रक्षा^०, लक्ष्मणप्रा...
 द^०, वयस्वर्थे^०, वर्णसंज्ञा^०,
 वशम्^०, १वरय^०, चाक्रसाद^०,
 विघ्न^०, विद्या...रास्^०, २विद्वे-
 पण^०, विद्वेयिमोहन^०, विष्णु-
 प्रीति^०, वैराग्यबोध^०, शक्ति^०,
 शम्^०, १शिवम्^०, शीतवा...
 ण^०, शुभ^०, श्री^०, सकलकारण-
 कार्य^०, संज्ञोभ^०, सम-तदुरित-
 क्षय^०, २संज्ञोहन^०, सरोरुह^०, सर्व-
 क्षोभ^०, सर्वजनवशम्^०, सर्वद-
 क्षयम्^०, सर्वपापक्षय^०, सर्वयज्ञ-
 कर्मन्^०, सर्वरक्षा^०, सर्वविपनाश^०,
 सर्वसंपद्शुद्धि^०, सर्वसिद्धि^०, सत्य-
 स्वम्भ^०, सर्वाभ्यासन^०, सिद्धि^०,
 सिद्धिशुद्धि^०, सुरा^०, स्वप्न^०,
 *४ कर^{१५} - लक्ष्मन्^०, दुर्^०, व्याति, सु^०,
 १करण, णी- ४अ^०, अदश्य^०, अधि^०,
 आतह^०, उप^०, उपा^०, एकी^०,
 एवैक^०, यथादि^०, कार्य^०, बुद्धि^०,
 कुलधर्म^०, १क्षुभ्^०, चतुरादि^०,

चतुर्दशन्^०, जन्मन्^०, जल...
 कर्मन्^०, ज्ञान^०, तन्^०, तुष्टि^०, निरा^०,
 निरुद्ध^०, पक्षी^०, पिरडी^०, प्र^०,
 याहायन्तद्^०, मूकी^०, वशी^०,
 वि^०, विराम्^०, विवृत^०, व्या^०,
 शक्य^०, शीतली^०, परमुखा^०,
 सकली^०, राक्षस्य^०, समी^०, सव^०,
 सुग्रीवसख्य^०, स्यष्टिरिथल्यन्त^०,
 स्थान^०, *पृष्ट^०, र्त्वी^०, हीनकर्मन्^०,
 *करण-वृत्ति-सामान्य^०,
 २ करि(रन्) > णी - तिरस्^०,
 करिन्वद-उपा^०,
 कर्तव्य- ४अ^०, अहम्^०, प्र^०,
 कर्तुम् ४अ^०, आत्मसात्^०, चेतनी^०,
 निश्चयी^०, स्थूली^०,
 कर्तृ - कर्ता पाशु १, ११^{१६}. [तं-
 ४अ^०, अगम्यागम^०, अनर्थे^०,
 अभिमत^०, अशुभक्षय^०, अहंकार^०,
 १आदि^०, उत्पत्तिस्थितिलय^०,
 उदुद्^०, कर्मन्^०, कार्यकरण^०,
 इक्षुभि...किया^०, कियार्कमेज्य^०,
 सङ्ग^०, जगत्^०, तद्^०, प्रत्यच्^०,
 फलकर्मन्^०, भेद^०, सहत्^०, वि^०,
 १विरव^०, विवस्वदुष्टितस्मभ^०,
 १थाद्^०, संन्यासविघ्न^०, सर्व^०,
 १सर्वकर्मन्^०, सर्ववातस्मभ^०,
 सर्वसंहार^०, सर्वसिद्धि^०, सुरपृष्ट^०,
 सष्टि^०, स्यष्टिस्थितिसंहार^०, स्थिति-
 संहार^०]
 *कर्तृ(क)- ४अ^०, सर्वकार्यार्थ^०,
 कर्तृ-ता- आत्मन्^०,
 कर्तृ-स्व- गुण^०, चेतस्^०, पारमा-
 थिक^०,
 कर्तृव्या(ल-आ, दि-दुःख-
 निवृत्ति-द्वार- -द्वारा सं २,
 १, १,
 कर्त्रो(र्त्वा-या)दि- अज्ञानजन्य^०,
 कर्मन्-मं गमे ३; -मैणाशा ३५६^{१६}.

a) = २हन् - 1 b) वर्तते श्नु । c) भावे कर्मणि वा श्नु । d) ट्. ग. ३५०। i) e) ग. ३२४।
 *द्वार-> द्वारा इत्यत्र यनि. तोषः द्. । f) ज्ञान.. अगम्याः ता...प्या. । g) बाध २, ११ ।

[०- ४अ०, अखिल०, अज्ञान-
...स०, अतिविद्वत्, अद्वयुत०,
अनन्त०, अनित्य०, अपानवायु०,
अशुभ०, आरन्ध्र०, आश्रम०,
आह्वान०, इन्द्रिय०, ईक्षति०,
उप०, उदान०, उपनायन०, क्लो-
ल०, कर्त०, १काम०, कार्य००,
२काल०, कुत्सित०, ३धर्म०,
कृकर०, कृत०, कृत्स्न०, कृषि०,
कृष्यादि०, क्रिया०, क्रेश०, चक्र०,
चौर०, गर्भाधानादि०, गुण०, गुह्य०,
गृहस्थांचित०, ग्रहमारण०, जग-
त्सर्जन०, जन्मन्०, जन्मान्तर०,
ज्ञान०, ज्ञानामिदम्, ज्योतिषा-
यम्, तप्तद्, तद्, तदुक्त०,
तन्त्री०, त्रि०, त्रिजगत्सृष्टिस्थिति-
प्रलय०, त्रिजगत्सृष्टिस्थित्यस-
न०, दहन०, दुष्, ३देवदत्त०,
देवपितृ०, देश०, देहोपाधि०,
३धनंजय०, धर्म०, २नाग०, नाना०,
निग्रह०, नित्यनैमित्तिक०, निद्रादि०,
निःशेष०, निम्, पष्ठीकृ...सं-
भव०, १पाप०, १पुण्य०, पुण्य-
पाप०, १पुत्र०, पूर्व०, प्रजनन०,
प्राच्, प्राण०, प्राणित्, प्रातः,
प्रारब्ध०, प्रारब्धसंचितगत्यामिन्,
१फल०, नाधिन्, बाह्य०, १शक्यन्
भाविन्, ३भीम०, मद्, मद्, मद्-
र्वित०, १मनोवाक्काय०, मृदु०,
१मोघ०, १मोक्ष०, यज्ञ०, यज्ञदान-
तपस्, यथा०, योगसंन्यस्त०,
राजन्, लिपि०, १वाच्, वाङ्मनः-
काय०, वि०, विद्या०, विशुक्कृ,
१विरव०, विहित०, वेदमार्ग०,
वेदसंस्कार०, वेदादरण०, वैश्य०,
व्यान०, १शिव०, शुभ०, शुभा-
शुभ०, १शेष०, १श्राद्ध०, धृति-
रूप...व्यान०, पद्, सक्वम०,
संचित०, १सन्, २संख्या०, १समा-

न०, सर्व०, साज्यतापु०, गृष्टि०,
स्व०, स्वप्न०, स्वस्व०, स्वाधम-
विहित०, हान०, होम०]
+कर्म-कृन्- ४अ०
१कर्म-फल- -लेपु दे ४; प
४६५: २०. [०- जन्मन्]
कर्म-मार्ग- वेदविहित०, वेदोक्त०
कर्म-विधोप- पुराण...कर्णण०
+कर्म प्रतोत-उ; पवास.(स-प्रा)
दि- नाना०
+कर्म-विद्या-ज्ञानो(न-उ)पधी-
त- महिर्लेखित०
+कर्म-स्वभाव-दुःख- स्वभक्त०
कर्म(मै-द)न्द्रिय- ज्ञानेन्द्रिय०,
पथन्, पृथिवीकार्य०, युक्ति०,
धोत्रत्वगद्यादि००
+३कार- अन्ध०, अयस्, इपु००,
२काल०, कोश०, चर्मन्, १लोह०,
घाती०, सूप०, स्वर्ण०
+४कार- अक्षी०, अधि०, अनु०,
अप०, अलम्, अहम्, आ०,
इह०, उप०, १काम०, चमत्,
१नमस्, निरवधि०, १पुरुष०,
प्र०, प्रति>ती०, प्रत्युप०, प्र>प्रा०,
वशी०, वि०, संस्, १सत्, सा-
क्षात्, स्वधा०, स्वाहा०, दि०, ३हृ०
+कारक- अज्ञान...दि०, अमृताप्या-
यि०, २उन्मनी०, उप०, केवलप्राप्ति०
क्रिया०, वर्षसंकर०, संहार०
कारण- ४अ०, अखिल०, अधर्म०,
अनाद्यखिलकारण०, आत्मन्,
२आय०, आयास०, आयु-सर०,
इत्याशुपनिषद्, उरपात्तिस्थिति०,
उपादान०, एक०, ऐश्वर्य०,
कारण०, फय०, जगत्, जन्म-
न्, जन्मादि०, जरा...मरण०,
तत्प्राप्ति०, तन्तु०, त्रिकालज्ञान०,
दुष्ट०, दुःखवर्ण०, द्वितीय०,
नियत०, निवृत्ति०, पञ्चभूत०,

परम०, पूर्णानन्दक०, प्रतिनियत०,
१घ-घ०, १प्रधानन्द०, भक्तानुग्रह०
२भय०, भ्रान्ति०, मनोत्वय०, मह-
त्, मिथ्यात्व०, १मूल०, १मोक्ष०,
सदानुक्षण०, पारानामात्र०, विरा-
ग०, विलय०, व्यक्ताव्यक्त०, शरीर-
ह्य०, श्रोत्रादि०, संसारगामरा-
णार०, सम०, सर्व०, सर्वकारण०,
सर्वार्थ०, सृष्टिस्थितिलय०, सौहि-
ल०, स्थिति०, धूल०, स्व०, स्वान-
प्रत्यय०
+कारण-कार्य- एकल०, सर्व०
+कारण-जल- अनन्तकोटि०
+कारण-भूत- जगत्, १विद्य०
कारण-रूप- जगत्
कारण-शरीर- १व्यष्टि०
+कारित- कृत०
+कारिन्, शी- अकार्य०, अन-त-
रसत्पाद०, अनु०, अत्योद्देग०,
अप०, अपुनर्जन्मन्, अप्रत्यय०,
अरिष्ट०, आदेश०, इष्टादि०, सत्य-
तिस्थितिसंहार०, ३प०, १चम०,
जगत्...स्त०, जगदाधार०,
तद्, १दह०, धर्म०, नानाविभ्रम०,
निर्गति०, गरोपद्रव०, १पाप०, पुरी-
प०, वेशस्, प्रत्यय०, मद्रसंपति०,
मद्, मदनोन्नादन०, मोहसं-
क्षय०, यथा०, मत०, शुक्लमोचन०,
संहत्य०, समस्तस्वरूपविरोध०,
१सर्वकर्मन्, सर्वज्ञान०, सर्वव्या-
स०, सर्वपुण्य०, १सर्वमङ्गल०,
२सद्, सायु०, सिद्धि०, २हित०
+कार- जरत्
+कारक- रजाति०
कार्य- -यैम् सांका ६०. [०-
४अ०, अग्नि०, अग्निकार्यादि०,
अज्ञान०, अनारब्ध०, अन्न०,
अविद्या०, आकाश०, उप०, एक०,
कर्त०, कारण०, कृत०, चिन्तित०,

जगत्, तद्, देवपितृ, १नमस्, पितृ, पृथिवी, प्रकृति, प्रधान, १ब्रह्मन्, १भ्रमरक्रीट, माया, १राम, १रूप, रूपग्रहण, वायु, वि, विशेष, शत्रु, १सत्, सर्व, १स्थिर, स्व, स्वस्व, कार्य-कारण-अखिल, तद्, सर्वाधार, कार्य-रूप-ब्रह्मादि, कर्त्वा(र्षि-अ)घर्ष-पितृ, कर्त्वा(र्षि-उ)पाधि-सर्व, कुर्वन्-४अ, त्रिवृत्, तीर्था, दही, प्र, वि, कुर्वाण-४अ, प्र, हुंकर्, १कृत्-१-
 +२कृत्-अन्योपदेश, अवट, कर्मन्, कल्याण, कृत्स्नकर्मन्, जगद्गुण्येपचिन्, त्रिकर्मन्, त्रिजगत्...न्, दिन, निद्रादिकर्मन्, परकायप्रवेश, १पाप, १पुरय, प्रसाद, प्रिय, १ब्रह्मन्, मकर्मन्, १म, १मनु, मन्त्र, लोकत्रय, विज्ञेय, विनाद, १विद्य, १वि-श्वकर्मन्, वेदान्त, श्लोक, सर्व, १सर्वकर्मन्, सुष्टिस्थित्यन्त, स्वकृतकर्मन्, खिद्य
 कृत-तम् ४, १५, १^{१५}. [०त-४अ, अज्ञी, अज्ञानिन्, अधि, अनेकजन्मन्, अन्य, अपरोक्षी, अरम्, अलम्, अविचार, अस्मद्, अहम्, अहोरात्र, आजन्म, आत्मन्, आविष्, इत्यादि, इन्द्रिय, ईरता, उपा, मोम, कर्षणेण-दि, क्लृपी, कार्पाततन्तु, फालसात्, इरहली, कुन्-क्षय, रिती, शुद, गोमय,

चित्री, चिरकालात्यन्त, जन्मन्, जन्मान्तर, जरामरण, ज्ञानाज्ञान, तद्, तिरस्, त्रिगुणी, दिवस, दिवारात्रि, दुष्, १देव, द्विदली, धवली, १न-मत्, नानाश्रयि, नि, पत्नी, प्रमात्त, च, पर, परिधि > धी, परिमली, परिन्, पितृ, पुरद्, पुरा, पूर्वजन्मन्, प्र, प्रकटी, प्रकार, प्रकृति, प्राजली, वहिस्, बाहु, मस्मसात्, गेपज, मनुष्य, मन्यु, मही, यन्त्री, योगाभ्यास, योषिनीकालारानि, रहस्य, रात्रि, रासलीला, यदा-धस्, वशी, वि, विक्रसी, विदुम, विवशी, व्या, शस्त्र-बाणक्षत...ग्रण, शिश्र, शृङ्ग-ली, प्रकृजन्मन्, परमात्त, संस्, १सत्, सप्तजन्मन्, रमा, रानी, सर्वजन्मन्, सहस्, सु, स्पष्टी, स्व, स्वात्मी, स्वाहा, खी, हि, हेमरीन्-] कृत-प्र-४अ, +कृत-पाप-अनेक, कृत-बुद्धि-> +कृतबुद्धि-स्व-४अ, +१कृत-यत्-०-१नन्द, कृता(त-अ)कृत-तम् गर्भ ३, कृता(त-अ)कर्मन्-४अ, कृता(त-अ)न्त-दशमीव, कृता(त-अ)र्थ-४अ, +कृता(त-उ)द्वाह-४अ, रकृतवत्-कृति-अनु, अहम्, आ, आत्मन्, निम्, पुष्क, प्र, प्रति, वि, +कृति-श्रुति-न्तः सांस् ३, १४, +१कृष्य अज्ञी, अपरोक्षी,

अलम्, आविष्, एकी, क्री-डी, चतुर्गुणी, चूर्णा, त्रिगु-णी, निरा, पत्नी, पिण्डी, पुरस्, प्रकटी, प्रदक्षिणी, भस्मी, सुकुली, वशी, विषटी, संस्, १सत्, संपुटी, सिद्धी, खी, कृष्य-४अ, २असत्, इत, तन्तु, पद्यन्, चहु, सर्व, कृष्या(त्य-अ)कृष्य-विधूत्, कृष्या-१पाप, प्रत्यर्थिन्, महत्, विप, कृत्रिम-४अ, +कृष्वस् प, रत, सहस्र, कृत्वा ध्या १८. [०त्वा ४अ, १नमस्, १सत्, स्पष्टी, १हृद्] क्रियमाण-प्र, हि, क्रि(य>)या-या भा ३ १. [०य, या-४अ, अखिल, १अज्ञ, आन-न्द, इच्छा, इच्छा, इष्टापूर्त, उच्चापदि, उदक, उद्गारादि, उद्वर्तन, पितेन्द्रिय, वगत, २जाति, ज्ञानबल, दधिमथन, १दान, देश, इन्ध्य, प्यान, निष्, पन्थन्, पयमहायज्ञ, पिएयेदक, १, प्रकाश, प्रति, मन्मथ, २मह, मज्जन्, मना-प्राणेन्द्रिय, यज्ञतपस्, यज्ञदान-तपस्, १रति, जातु, वि, विम-ला, २वेद, ६स, २संथा, सर्व, स्व] +क्रिया-कारक-सर्व, +क्रिया-जाल-रत्, क्रिया(या-आ)दिक-स्वविद्युक्त, चिकीर्षु-निरा, चिकीर्षु-प्रिय, √कृ(हिंसायाम्) गृ, ५ १२५६ प्र, कृकर-रनाग, प्राण

a) नप् (३२४६) यति. संख्यानिरदेशः प्र. । b) का ४०, १, १० (एतदनु गप्, ५२४६) गोपः प्र. । c) =गोपविशेष- । d) आन, अज्जाः सा. अया. । e) यया प्र. । =१यम, सिद्धान्त- । f) गप् (३२४०) यति. संख्यानिरदेशः प्र. । g) वैश्र यद. । h) आन. अया. । i) ताप्रि. अया. ।

कृच्छ्र- अति°, एकत्रात्र°
 कृच्छ्र-चान्द्रायणा(ण-आ)दि-
 विष्णुक°
 √कृत्>न्त् अतु°,नि°,निम्°
 +कतन->+कतन-पूजन- देह°
 +क(तक)>+क(तक)- कपाल°
 +कृत्->+कृत्-रुच्- ४अ°
 कृन्तन- अतु°
 +२कल्प निस्°
 १-२कृत्- १-२कृत्-वस्- √क(करणे)
 परि. द्र.
 कृतेन्द्रियाचार्यान् मै ५, ८°
 कृत्य √क (करणे) परि. द्र.
 कृत्स्न- ४अ°, २कारा°
 कारस्थं- ४अ°
 कृत्स्न-विद्- ४अ°
 √कृप्(वधा.)>कृपण- दीन°
 कार्पण्य- ४अ°, हर्ष°
 १कृपा- ईश्वर°, गुरु°, दानादि°,
 भोजनोच्छिष्ट°
 +कृपा-कटाक्ष- नेत्र°
 +कृपा-शालिन्- अति°
 +कृपाण- अरि°
 √कृप् अप°, आ°, उद्°, उदुद्°, नि°,
 निम्°, प्र°, संनि°, सम्°, समा°,
 समुद्°, संप्र°
 +कर्थ- उद्°, नि°, निस्°, प्र°, संनि°
 सम्°, समा°
 +कपंक- आ°
 कर्पण- आ°, १पाप°, लिङ्गा°,
 सम्°, संप्र°
 +कपिन्- २काल°
 कृपि- -विः गोपु १°
 +कृष्ट- ४अ°, अप°, उद्°, उदुद्°,
 प्र°, संनि°
 +कृष्टि- १सत्°
 +कृन् आ°, उद्°, निम्°, समा°,

रामु°
 +कृष्ण- संनि°
 +कृष्णमाग- आ°, सम्°
 १कृष्ण- ४अ°, १सोहित°, २सोहित°
 २शुक्र°
 +कृष्ण-वाम->कृष्णवासि(न->)-
 नी- नी गार ४०६: २२.
 १कृष्णा(प्य-श्र)जिन- दर्भ°
 २कृष्ण- -ःगः, -ःगाय गोपु १;
 -ःगेन सु २०३: ५५'. [°प्य-
 ईश्वर°, वैशोर°, जल...मादि°,
 २प्रभ°, ३भद्र°, २मत्स्य°,
 महाविष्णु°, राधा°, १राम°,
 श्री°, २सुभ्येक°]
 +कृष्ण-राधा- श्री°
 +कृष्ण-यामन- श्री°
 +कृष्ण-सुदशन- श्री°
 +√कृ(शब्दे) आ°
 +√कृ(विशेषे) अन्°, उपसं°, नि°, प्र°,
 वि°, विप्र°, सम्°
 +५कृ- आ°, नि°, प्र°, सम्°
 +३करण- प्र°
 +किर- प्र°, वि°
 +कीर्- अन्°, आ°, उपसं°, प्र°, वि°,
 विप्र°, सम्°, समा°
 +कीर्थ अन्°
 √कृत्>कीर्त्, कीर्त्ति आभि°, परि°,
 प्र°, सम्°, संप्र°
 कीर्त्तन- १कथा°, तद्°, प्यान°,
 १पुराय°, प्रणव°, २श्रवण°, सम्°,
 संबन्ध°
 कीर्त्तवत्- सम्°
 १कीर्त्ति- ४अ°, आयुस्°, उपायन°,
 धर्म°, प्र°, श्री°, सर्व°
 +कीर्त्ति-मुख- गणेश°
 कीर्त्तित- परि°, प्र°, सम्°, संप्र°
 +कीर्थ सम्°, °.

√कल्प् (<कृप्) कल्प्, कल्पि,
 कल्पयत् वृ ६, ४, २१५°
 [अप°, अभि°, अन्व°, आ°, उद्°,
 उप°, उपोप°, परि°, प्र°, प्रति°,
 वि°, सम्°]
 १कल्प- वैदिक°
 २कल्प- मन्त्र°, यथा°
 ३कल्प- -स्वान् शि ६, २०°.
 [°कल्प- तापन्°, पुरा°, महत्°]
 कल्प(ल्प-श्र)न्त- आ°
 +कल्प(ल्प-श्र)न्तर- महत्°
 ४कल्प->१कल्प-क- भास°
 +कल्पक-तर- मुक्ति°
 कल्प-तर- ३ मृत°, आनन्द°,
 १पद्म°, शोध°, प्रकृतेजोमयाविवर्°,
 १मद्मन्° मद्मविद्या°, मुक्ति°, यज्ञ°,
 २योग°, विद्या°, विभूति°, २वेद°,
 वैजुलठ°, स्वात्मान...च्छ°
 +कल्प-वन- १मद्मन्°
 ५कल्प- गपु. पृ२५८ द्र.
 ६कल्प- ४अ°, अतु°, अशोप°,
 २असत्°, आ°, उप°, उपोप°,
 द्विज°, पीठ°, प्रताप°, प्रदीप°,
 प्रयोग°, भस्मन्°, वि°, शत°, सम्°
 +२कल्प-(क)- ४अ°
 ३कल्पक- वि°, सम्°
 १कल्पन- अन्य°, १मनस्°, सम्°
 २कल्प(न->)क-
 ३कल्प(न->)ग- १अक्ष°, इत्यादि°,
 पुंस्त्व...दि°, प्रारब्ध°, बहु°,
 १मनस्°, यन्त्र°, १रुज°, वज्र्या-
 चर्च°, वर्षावाहन°, वस्तु°, शक्ति-
 सेना°, १शतानुस्°, सेनादि°
 कल्पना-नाळि- निरस्त°
 कल्पित- ४अ°, चितप्रकाशारि°,
 जीव°, देवतिर्यङ्-...अद्°, नानासं-
 कल्प°, परि°, पुरा°, प्र°, १मनस्°.

a) √कृत्वा; इन्द्रियाथं-> -थान् इति शोधः द्र. (छ. मैत्रि ६, ८) । b) =कृत्- । c) भावे कर्त्तरी वा कृत् । d) आन. थपा. । e) गपु. (१२४९) कृष्ण-वासि(न->)नी- इत्यत्र यनि. शोधः द्र. । f) तैत्थी १०, १, ८ । g) अ १०, १८४, १ । h) गपु. (पृ२५८) यनि. संख्यानिर्देशः. द्र. । i) भावे कृत् ।

युक्तिं, वक्ष्यणीदिं, बालाप्रशतं,
विं, शालितपट्टलं, १५३३,
सम्, सुं, स्थूलं, स्वं, स्वप्नं,
२वयम्
*कल्पित्वा(१तं)-रज्जुसर्प-
कल्पितरज्जुसर्प-वत्^१ कञ
४, १०.

*कल्प्य परिं, प्रं, सम्
कल्प(त)सा-साः कौ २, १२?
१३? [स-अभि, जिज्ञास,
मायां, सम्]
*कल्पसि- भासं, सुगमं, संज्ञामूर्तिं,
सम्

केत- ✓कित्त(ज्ञाने) परि. द्र.
केतक-> *केतव-वद- मधुरावनं
केतन- ✓कित्त(निवास) द्र.
२केतु- शनिं
केन- ईशं

केयूर- धर्मार्थकामं, १शहं, सुं
केलि- कन्दुकं, १कामं, कुञ्जं, गुणं,
गूढं, २जलं, यमुनां, १रतिं,
रासं, १सुरतं, हव्यं
*केलि-कला- नित्यविहारहस्यं,
मुखं

*केलि-कौतुक- निकुञ्जं
*केलि-क्रीडा- १पालं
१केवल- एकान्तं, धर्मं...हितं,
निसं, संपूर्णं
कैवल्य- अण्डविराजं, ईशानं,
कठवलीं, परमं, परमहस्यं,
१धम्मं, २लीलां, १विदेहं,
शुद्धोपधानदलक्षणं

*कैवल्य-न्योतिस्- अचल-
...नं
*कैवल्य-फल- अनेकजन्मा-
...कं

*कैवल्या(ल्य-आ)नन्द-
अनन्तसहस्रं
कैबला(ल-आ)धम्मन्- विगलितगुण-
जालं
केश- आं, कीटं, नखं, १सुकं,
हिरण्यं

*केश-पर्यन्द- नासादिं
*केश-यात्र- गुम्भितं
केशा(श-अ)न्त- नासादिं
*केशन्- सुं
केशव- १शिवं
*केसर- अशुकं, अन्तं, अष्टदलं,
तटं, द्वात्रिंशत्, ४नामं, पीठं
६शं, सज्

केसर-सुगमद-कूर्पूर-चन्दन-नाग-
रेखा-संयोजित-लला(ट)-
टा-

*केसर-रस- अन्त.सुगन्धतैलं
*केसर-संख्यान- यावत्
*२केसर-> *केसरि- वृं
*केसरि- नरं, स्युमातङ्गं
*कैटभ- २मधुं
कैलास- परमतत्वं, हिमाद्रिं

*कैलासे(स-ई)श्वर- चैतन्य...न्यं
केशोर- १किशोर- (परि.) द्र.
को-> को-विद- अनेककलां, कलां,
कामकलां, तत्त्वं, नयं,
मणिपरीक्षां, रतिकैलिकलां,
लतापरीक्षां, विपरीतमु...लां,
१शश्वं, सकलकलां, सदासा-
...नं, सुरतकलां, सुरतसं

कोकिल- १मयूरं
*कोकिल-धम्म- उन्मदं
कोच- चन- चरिष्या, चित्त-
✓कुचं द्र.
*कोटर- १भणुं, रसं, शय्यागारं

सर्पपीकोणं, हृत्सरोहं

१कोटि- अनन्तं, अनेकं, अच्यं, अ-
युतं, अयुतद्वयं, अयुतायुतं,
अष्टादशन्, २ष्टाधिकशतिं, एकस-
प्तत्यधिकं, कर्मन्, २कल्पं, १को-
टिं, ग्रन्थं, चन्द्रं, जन्मन्, जपं,
तडित्, तावन्, तुलां, त्रिं,
दशन्, पचाशत्, पार्वणचन्द्रं,
बालार्कं, ब्रह्मानन्दमयमानं,
भातुं, रविं, लक्षं, १वर्षं, शतं,
शतसहस्रं, १परणवतिं, सपादं,
सप्तं, सहस्रं, १स्यौं, हाटकं

*कोटि-काम- रतिरमणं
*कोटि-दिवाकर- उद्यत्
*कोटि-द्वय- १वर्षं
*कोटि-ब्रह्माण्ड- अखिलारब्धं
कोटि-शत- जन्मन्, १पापं, चिन्तुं
४युगं
*कोटि-सहस्र- जन्मन्, नादं, योनिं
*कोट्य(टि-य)एक- १वर्षं

२कोटि- गपू २२५३ द्र.
*३कोटि- अवानोदयं, प्रं, मुकुटं,
सामा यं, सर्वं, सुखं

*कोटि(-क)- उभयं
कोट्य ✓कुट् (परि.) द्र.
कोण- अमं, चतुर्, त्रिं, नवन्, पय-
दहनं, पयर्, पल्लवं, विदिशं,
पपू, सर्वमीं, साधुं
*कोण(-क)- त्रिं, पपू
*कोण-चतुष्टय- १चक्रं

कोदण्ड- मोहनं
१कोमल- तुणजली...नं, रतिकलां,
लपुं, सुं, हाटकसुगन्धं
*कोमल-रत्ना- अनेकं
*कोमल-मुक्ता(क-आ)श्लीक-
घटितं

a) पां यनि शोधः द्र. । b) गपू. (२२५८) 'व विवत्, ता-> -ता' इत्यत्र यनि शोधः द्र. ।
c) 'पूसा' इति निष्ठा। यनि शोधः द्र. (तु. आन., चण्डा., वां ४, १२; ११) । d) व्यु. = केस- (१) गपू. (२२५२)
यनि. संख्यानिर्देशः द्र. । e) गपू. (२२५३) 'योतिस्' इत्यत्र यनि शोधः द्र. । g) व्यु. = विद्वच्छटा- । h) व्यु. !
= मधुरविशेष- । i) व्यु. ! = दूरत- । j) यना. द्र. । = धम्ममाय- , अथ- प्रयु. ।

१कोल-

+२कोल- लो पित्र १, १२९१.

+कोलाहल- दैत्य°

कोश- अण्ड° अक्ष°, अक्षमय°, अक्ष-
मय...मय°, आ°, आकाश°,
आण्ड°, आनन्द°, आनन्दमय°,
१देव°, नवरत्ननिधि°, पयन्°,
१पय°, पुनर्°, प्राण°, प्राणमय°,
१पद्मन्°, भावाभावदशा°, १म-
नस्°, मनोमय°, विज्ञानमय°,
विपय°, पप°

+कौशेय^{१०}- ३पित°+कोश-चतुष्टय-कोश-त्रय-+को-
श-द्वय-एतद्°

कोष्ठ- प्र°

१कोसल- उप°

कौपीन- उदासीन°, एक°, कन्या°,
जीर्ण°, १त्रिदण्ड°, दरण्ड°,
१रुढ°, मौञ्जी°

+कौपीन-वस्त्र-कटिस्त्र°

१-२कौसुम्भ- कुसुम्भ- (परि.) द्र.

कौस्तुभ- १गह्व°°, श्रीवत्°, हस्तस्थ°

१क्रतु- ४अ°, तद्°, यज्ञ°, यथा°,
यद्°, शत°, सर्व°, सहस्रसंवत्सरा-
न्त°, सु°

२क्रतु^{१०}- उम् मैत्रि २, ३.

+✓कन्द आ° सम्°

+कन्दन- सम्°

✓कम्, >चिक्रमिप् अति°, अनु°,
अनुद्°, अन्वव°, अप°, अभि°,
अव°, आ°, उद्°, उप°, उपनिस्°,
उपसम्°, निस्°, परि°, परिमम्°,
प्र°, प्रति°, प्रतिसम्°, वि°, विनिस्°
व्युद्°, सम्°, समा°, समुद्°

कम- ४अ°, अध्यात्मकयन°, अनु°,
अभि°, अष्टोत्तरशता...ति°,
आ°, आरोहावरोद्°, आश्रम°उक्त°, उद्°, उप°, उर°, क्रम°,
पनस्पन्द°, चतुर्मुस...ख्या°,
तद्°, तारतम्य°, तारमा...णी°,
द्वित्रि°, नभस्°, पद°, परम...पद्°, परि°, परिणाम°, पवनव्य-
त्यय°, पारिजात्यस्वरूप°, पूर्व°,
पूर्वाचार°, पूर्वोक्त°, पूर्वोक्तद्वयज्ञ°प्रतिसम्°, प्रदक्षिण°, प्रपञ्चोत्स-
ति°, प्राणायाम°, मर्कट°, महदा-
दि°, सुक्ति°, १मोक्ष°, मोक्षपथ°,
गीजाङ्घ्रु°, यथा°, वर्णाश्रमधर्म°

वि°, विसत°, विमल°, व्युद्°, सम्°

संभवव्यत्यय°, सर्वधर्मगुण°, सर्वा-
चारनय°, सविलासमहा...य°,
सविलासमूला...र°, स्थूलसूक्ष्म°,
स्वविशुक्त°, स्वलिङ्गायासन°,
स्वस्थ°, हृद्योग°

कम-योग- वैषक°

+क्रमण- अनु°, उद्°, वि°, सम्°

क्रमत्- आ°

+क्रममाग- +क्रमिष्यत्- उद्°

+क्रम्य अति°, अभि°, आ°, उद्°,
उप°, उपसम्°, निस्°, प्र°, विनि-
स्°, समा°+क्रा^{१०}- १दधि°+क्रान्त- अति°, अप°, अथ°, आ°,
उद्°, रय°, वि°, विनिस्°, विष्णु°

समुद्°, सु°

+क्रान्ति- आ°, उद्°, निस्°, सम्°

+क्रामत्- अति°, अनुद्°, उद्°

+चक्रमाण- वि°

+चिक्रमिष्यत्- उद्°

+क्रमुक- आम्र°

+क्रिमि- कोशकर°

✓क्री अभि°, अत°, परि°, वि°

कृय- वि°

+कृयग- अभि°

+कृयिन्- वि°

✓क्रीड् सम्°

क्रीडन्- सम्°

क्रीडन->+क्रीडन-क^{१०}- १वाल°

क्रीडमान- सम्°

क्रीडा- अतिरस°, अत्यन्त°, आ-
त्मन्°, आनन्द°, कैलि°, कौतुक°,
२जल°, तद्°, नारायण°, १नित्य°

निरन्तर°, नृत्य°, परस्पर°, १भाल°

महत्°, १रति°, रत्न°, रसिकानन्द°

रहस्य°, रास°, विष्णु°, विहार°,
सम्°, स्व°

क्रीडा-पर- अति°, निरन्तर°

क्रीडा-रति- १विद्य°

+क्रीडा-रस- सर्व°

+क्रीडा-यन- ब्रह्मानन्दरस°,
मधुरावन°

क्रीडा-स्थल- गुण°

क्रीडित- सम्°

✓कृष् प्रति°

कृष- ४अ°, इच्छा°, १काम°,
१जुष्ट°, जरा°, जित°, निन्दा°,
१भय°, १राग°, लोभ°, हर्ष°

+कृष मस्तर- ४अ°

+कृषो(ध-उ)न्मत्त- चन्द्र°

+✓कृष् आ°

+कृष्ट- आ°

कृर- ४अ°

✓कृम्>+कृम- ४अ°, गत°

✓कृिड>कृिड- जालकित°

कलेद्- मेदोमांस°

कलेदिन्- सर्व°

+कलेद्य- ४अ°

✓किलश>कलेशि परि°, सम्°

किलष्ट- ४अ°, परि°, सम्°

कलेश- काय°, केश°, रागादि°

वाकाय°, शरीर°, सम्°, सर्व°

a) गम्. (६२५३) यनि. संख्यानिर्देशः द्र. 1. b) व्यु. ? =श्व-1. c) व्यु. ? =कलकल-1. d) पा ४, ३, ४२ 1

e) गम्. (५३५४) यनि. संख्यानिर्देशः द्र. 1. f) व्यु. ? =प्रजापतिविशेष-1. g) भावे कर्तार वा कृर. 1. h) पा ३,

३, ६०. i) व्यु. ? =पृथक्विशेष-1. j) व्यु. ? =क्रीट-1.

+क्लेश-कश्मल- सर्वे
 +क्लेश-जनन- ४अ°
 +क्लेशयत्- सम्°
 कर्त्ता > कर्त्ता-कार- > +कर्त्ताकारिन्-
 एकारिन्°
 +क्त् > +क्ष-कार- > +क्षकारा(र-ञ्च)-
 ऋत्- अकारादि°
 +क्ष(क्ष-ञ्च)न्त- आ(ञ्च-ञ्च)दि°
 ✓क्ष्ण > क्षण- अनु°, उत्तर°, तद्°,
 निरोध°, प्रति°, यथा°, यावत्°,
 वाञ्छा°, संयु°
 १क्षणिक°-
 +२क्षणिक(क्ष)का°- कौमुभ्मा°
 +क्ष्ण- अमि > भी°
 क्षत- ४अ°, त्रिशूल°, शस्त्रबाण°
 क्षति- ४अ°
 ✓क्षुब्ध > क्ष(त्स्व) > व्रा°- १व्रह्मन्°,
 २विश्व°
 क्षत्रिय°- १व्रह्मन्°, १ब्राह्मण°
 +क्षत्रिय(य-ञ्च)पि- देविपि°
 ✓क्षुब्ध > +क्षपित- यक्ष°
 ✓क्षम् अति°
 १क्षम°- कार्य°, प्राणसंमहण°, भर°,
 व्यपहार°
 +क्षममाण- ४अ°
 २क्ष(म)मा°- ४अ°, अर्दिता°,°
 १निःसंकल्प°
 २क्ष(म)मा°-
 २क्षान्त°
 ✓क्षर (*यपा.) अमि°, वि°
 क्षर- आयुस्°
 १क्षर- अन्यगो°
 २क्षर- > +क्षार-रुषणा(ण-भा)-
 तिम्- ४अ°
 ✓क्षत् > क्षालि आ°, प्र°
 क्षालन- आ°, प्र°, शुद्धि°
 +क्षालिञ्च, +क्षाल्य प्र°

✓क्षि(क्षये)अप°, अव°, परि°, प्र°, सम्°
 १क्षय- ४अ°, अखिलदुरित°, अक्लि-
 सेन्द्रिय°, अनित्य***ञ्च°, अक्लि-
 या°, अशुद्धि°, अशुभ°, अहंकार°
 कर्मन्°, १कल्प°, २कुल°, वृत्तरन्°,
 -कृष्णपक्ष°, चित्त°, जेतस्°, जीवि-
 तव्य°, तद्°, तेजस्°, दुःख°,
 दोष°, दोषबीज°, परि°, प्र°, प्रका-
 शावरण°, प्राण°, प्राणिकर्मन्°,
 प्रारब्ध°, प्रियत्व°, विन्दु°, भूत°,
 १मनस्°, माहत्°, रागद्वेष°,
 लोक°, २वासना°, वासनारजनी°,
 वृष्टि°, शत्रु°, सवत्°, सम्°, समस्त-
 दुरित°, सर्वद्वन्द्व°, सर्वपाप°, सर्व-
 रोग°, सर्ववासना°
 +क्षया(य-ञ्च)तिशय- अविशुद्धि°
 +क्षयण- अव°
 क्षय्य-, +क्षित-, +१क्षिति- ४अ°
 क्षीण- अन्तर्°, तपस्°, परि°, प्र°,
 सम्°
 +क्षीयमाण- अप°
 ✓क्षि(निवासि) अमि°, परि°
 २क्षय- १यम°, ६स°
 +क्षित्- अन्तरिक्ष°, दिवि°, परि°,
 पृथिवी°, मदी°, लोक°, सर्व°
 २क्षिति°- अच्युत°, १ध्रुव°
 क्षेत्र°- कतत्र°, १उरु°, कैलास°,
 तीर्थ°, दार°, द्वारका°, धर्म°,
 नाभिकुरवतिन्°, पितृ°, २उ-
 यय°, बदरिकाश्रम°, महत्°, रामि-
 स्वर°, विष्णु°, १शिव°, १सत्य°,
 समस्त°, सर्व°, सिद्ध°, सु°
 क्षेत्र-ञ्च- ४अ°, क्षेत्र°, प्रधान°
 क्षेत्र-माल- गणेश°, दण्डेश°
 मन्मय°
 ✓क्षिप्, क्षिपेत् जाद ३, ६, १, [अभि°
 अमि°, आ°, उद्°, नि°, परि°,

प्र°, वि°, विति°, सम्°, समा°,
 समुद्°]
 +क्षिपत्- अमि°
 क्षिप्त- अमि°, आ°, उद्°, नि°, परि°,
 वि°, सम्°, समा°
 +क्षिपत्वा उद्°
 +क्षिप्य उद्°, नि°, प्र°, सम्°, समुद्°
 क्षिप्र- चिर°
 +क्षेप- इयु°, प्र°, वि°, सम्°
 +क्षेपक- प्र°
 क्षीर- गो°, २दधि°, धेनुस्तन°, पुप्य°,
 बहु°, हंस°
 +क्षीर-गौर- चन्द्र***जटा°
 ✓क्षुब्ध > क्षुब्ध- +क्षुब्ध-घण्टिका-
 कटिमेखला°
 +क्षुब्धो(द-उ)पत्रव- सर्व°
 ✓क्षुब्ध > १क्षुब्ध- १काम°, जरा°,°
 प्रात्यहिक°
 +क्षुब्ध-वृद्ध-विपासा-मोह-भय-
 दुःख- देशोपाधिकर्मन्°
 क्षुब्ध-भ्रम- सर्व°
 १क्षुब्ध- १युग्म°°
 ✓क्षुब्ध > क्षोभि सम्°
 क्षुब्ध- ४अ°
 क्षोभ- ४अ°, सुदि°, १मनस्°,
 महत्°, ताम्°, सर्व°
 +क्षोमण°- सर्वमनस्°
 +क्षोभिन्- सर्व°
 +क्षोभ्य- ४अ°
 ✓क्षुर् > क्षुर्- > क्षीर- भयन्°,
 अय°, अयुद्धय°
 +क्षुरि°- क्षुबल°
 क्षुरि(क्ष)का°- कठवल्ली°
 क्षेम- ४अ°, उभयपक्षसमान°, महत्°,
 १योग°
 क्ष्ण- ✓क्ष्ण ग्.

(a) =संतुङ्गवर्णपिरोप-। (b) गद्. (१२५९) यनि. संख्यानिर्देशः द.। (c) =हत्तीपिरोप-। (d) गद्. (१२६०) यनि. संख्यानिर्देशः द.। (e) गद्. (१२६१) यनि. संख्यानिर्देशः द.। (f) बभा. द.। (g) अन्त्याः यो. अन्ता.। (h) कर्त्तरी कृ.। (i) =तादाह्वयोपनिर्देशोप-।

ख

१ख ख-ख दत्ता १९.

✓'खच्'> खचित, ता- अनेकाकारं,

आरक्तमणि°, कनक°, चामीकरं°,

जाम्बूनदसुवर्ण°, नानामणि°...

खं°, पद्मरा°... खं°, मणि°, मणि-

घटितहाटक°, रसुक्ता°, रत्न°, रत्ना-

वली°, समप्रशक्ति°, सुवर्णभूमिज-

टित°, स्यूलपु° 'त्वा', हाटकमणि°

✓'खञ्ज'> खञ्जनं- चित°

*खट्वा¹¹-> *खट्वा(ट्वा-अ)ङ्-
अख°°

✓'खड्'> खड्- अख°°, धनुस्°,

१वज्र°°, १वर°°, १चाह्व°°

+ ✓'खण् आ°

*खण- आ°

✓'खण्ड् आ°

खण्ड- ४अ° आ°, इन्दु°, कौपीन°,

क्षीर°, गोपीचन्दन°, चतुर्थ°,

चन्द्र°, चर्मन्°, त्रि°, द्वादशराशि°,

रज्जु°, १वंश°, विजयकामकामुङ्क°

२सैन्धव°

*खण्डित- ४अ°

खण्डित- २काल°

खदिर- भाप्र°, ३भद्र°°

*खादिर-> खादिर-वन- मधुरा-

वन°°

✓'खन् उद्°, नि°

२ख- पृथ्वी°°

ख-ग- आदित्य°°, महत्°,

१मित्र°, रत्नम्°, तर्ष°

ख-धो-ग- दीपज्वाला°, स्फ-

टिक°°

*खा(त-आ)दि- धोप्रत्वग-

ख्यादि°°

२वे-ख(र>)ी- श्री°

*मनित्रालं पिट्ट°

*खात- उद्°, छेद°, रजल°

✓'खर(भेदेने)> १खर°- -रे मन्त्रि-
[र- नि°]

+ २खर¹⁰- महत्°, रवन°°

✓'खर्ज'> खर्जर- १ताल°

✓'खल्'> (वधा.)> *खल- महत्°

*ख(राडव¹¹)-> खाण्डव-वन¹¹- मधुरा-

वन°°

✓'खाद्'> खादत्- ४अ°

✓'खिद् परि°, सम°

खेद- ४अ°

*खेदा(द-अ)खेद- अट्ट°

✓'खिल'> खिल- ४अ°, नि°

*खिल्य- २सैन्धव°

✓'खुर'> खुर- पु°

+ १खिट- नवन्°

+ २खिट¹¹- अरि°°

✓'ख्या'> ख्यापि अनुव्या°, अभ्या°,

आ°, उपव्या°, उपा°, परि°, परि-

सम्°, प्रत्या°, प्रसम्°, वि°, व्या°,

सम्°, समा°

*ख्य- सम्°

ख्या- आ°, व्या°

ख्यात- अभ्या°, आ°, वि°, व्या°,

सम्°, समा°

*ख्याति- अन्यता°, अन्यथा°, नित्य-

शुचि°° त्मन्°, १पुरुष°, रजत°,

विवेक°, सदसत्°

*ख्यातुम् प्रत्या°, सम्°

ख्यात- अनुव्या°, उपव्या°, उपा°,

प्रसम्°, व्या°

*ख्यापन- अनर्थ°

*ख्यायक-, *ख्येय- आ°

ग

१-२ग- गम्. ५२६५ द.

३ग- ✓'गच्छ, गम् (परि.) द.

४ग- ✓'गै (परि.) द.

गगन- परमात्मन्°, २पाण्डर°

गङ्गा- मेरुष्ट°... सिन्°, रसातल°°

गङ्गा-घर¹¹- १प्रह्वन्°°

✓'गच्छ, गम्, गच्छ व ४४३:

२१५°. [अधि°. अनु°, अन्तर्°,

अन्वा°, अप°, अपि°, अभि°,

अभ्या°, अभ्युप°, अव°, अस्तम्°,

आ°, उद्°, उप°, उपसम्°,

उपा°, नि°, निर्°, वि°, विनिर्°,

व्यप°, संनि°, सप्°, समधि°,

समा°, समुद्°, ससुप°, समुपा°]

+ ३ग- अधोर्ध्व°, अध्वन्°,

अनन्त°, अनु°, अन्तर्°, अन्त-

स्त्रिकोणात्°, अन्ध°, अप°,

अपानोदयकोटि°, अम्बर°, २अ-

स्त°, आकाश°, उपवीतल°...

हन्°, उर°, ऊर्ध्व°, कण्ठ-

मध्य°, कन्दमध्य°, कल्पविद्वृ°,

कारखेदेह°, रत्न°, सुत्तलव°,

चतुष्पथ°... द्वार°, चन्द्रमण्डल-

मध्य°, चन्द्रमध्य°, चित°, जाति-

...दूर°, तद्रूपवश°, तन्मध्य°,

तल्प°, तुन्दमध्य°, तुरीय°, १तुर्य°,

तृतीय°, २त्रिकोण°, त्रिशूल°,

द्वृ°, दूर°, देह°, देहमुक्ति°,

द्वादशान्त°, १नवकोण°, नाना-

नाडीप्रसव°, निम्न°, पथदश-

कोण°, १पद्म°, पद्म°, परदार°,

पार°, पीठ°, पुरस्°, प्रज्वलद्-

वह्नि°, २प्लव°, मङ्गनाडि°,

मङ्गलोक°, ३भ°, भुज°, भुजम्°,

मध्य°. मानसमध्य°, मूलादिमङ्ग-

रत्न° रत्नपङ्कजमध्य°, रस°, वसा°,

वायु°, विपण°, विपरीत°, विद°,

विदम्°, वैदेहीमुक्ति°, व्योमन्°,

शङ्खमध्य°, शरिर्°, शीर्षान्द°...

मध्य°, १वृक्षोण°, गभा°, गमुद्°

a) 'गेले' इति अच्चा. संदि. (एतद्वत् गम्. ५२६३] बोधः द.) । b) व्यु. ? = पर्यह - । c) विप. गम्. (११९४) वनि. संपन्नानिर्देतः द. । d) = गदम - । e) = नद्यम - । f) व्यु. 1 । g) तैसा ४, २३, १ ।

सर्वे, सर्वज्ञाय...र, सर्वम्, सर्वतंतोषि...र, सव्यनेत्रान्त, साममथ, सीवर्षाम्बुजमथ, स्वाद्यस्वादकमथ, हृदयाम्भोजमथ

गच्छत्- अव, अस्तम्

गत- -सम् योशि ६, ३३; -ते मं २, ३, ५. [०त- अर्षवेदे, अद्, अधस्, अधि, अनन्त-तेजोराश्यन्त, अत्र, अन्त, अन्त, अन्तरि, अन्त, अन्वा, अप, अभिमुख, अन्वा, अमिततेजोराश्यन्त, अमितापरि...न्त, अव, अस्तम्, अस्थन्त, आ, आदित्य, आलयमथ, उद्, उप, उपा, ऊर्ध्व, ऋषेदे, कवीयसीमथ, ४कन्या, कला-मथ, कुण्डली, कृच्छ्र, कृष्णयजुर्वेद, कोष्ठमथ, खे, प्रदली, घटमथ, चक्रमथ, चक्रासन, चतुर्भुज, चिज्गत, चित्त, जगत, रजल, जितासन, जोषन्मुक्तिदशा, जीवमथ, ज्योतिरन्त, तद्, तदन्त, तद्भाव, तादृश्य, तालुमूल, तुन्दमथ, दिव्ययान, दीप्तिमथ, देशान्त, देहमथ, श्रुतिमथ, द्वादशान्त, धातु, नाडीसूत्र, नादनमथ, निद्, पद्, १परिन्, प्रभासन, २पार्श्व, प्रथमान्, प्रतिमिन्, प्रतिमाना, प्रनामथ, विन्दु, विन्दुमथ, बीजाद्यन्त, ब्रह्म-रन्, ब्रह्माण्डान्त, भातुमथ, मणि, मद्, मथ, १म-नस्, मनोमथ, मन्त्रासन, मूलाधार, मृद्युचक, मेघमथ, योनि, तिन्नदेह, सौकान्त,

वज्रासन, वन, १वयस्, वहि-मथ, वाचामयो...न्त, वात-नाडी, वि, विनिद्, व्यप, व्योमरन्, शरीरान्त, शशि-मथ, शिरोमथ, शीर्षान्त, शुक्लयजुर्वेद, श्रीसूक्त, सम्, समा, समुपा, सर्व, सर्वपीठ, सर्वमन्त्रासन, सामवेद, सुदर्शन...न्त, सुपुत्रान्त, सूर्य-मण्डलान्त, स्थूलदेह, स्व, १स्वमस्थान, स्वाधिष्ठान, १हृद्, हृदयान्त] गता(त-श्च)सु- ४अ गति- अग्न्यादि, अधीत, अरि, अहंममस्वप्न, उत्कान्ति, ऊर्ध्व, १ओकार, कर्मन्, क्षत्रियत्व, चराचर, गत्र, तच्छेष, तद्, तद्धर्म, दुर्, दुष्ट, नाडी, प्राण, प्राणायान, भोगैरवर्ध, १मनस्, महत्, १रति, सद्वाचालक्ष्य, वायु, विशेष, शत्रु, श्रुतोगनि-धरक, १सद्, सदा, सम्, स्वद् *गत्य अव, आ, उप, निद्, विनिद्, समा *गथ- सम् गन्तव्य- ४अ, अव गन्तु- उद् गम- अधि, अत्र, अभ्युप, आ, दुर्, दूरम्, नि, उरस्, भुजम्, विहम्, सम्, समा, समितिम्, समुद् गमन- ४अ, अग्न्या, आ, आ-कारा, ऊर्ध्व, श्रुतलप, श्रु-दार, चाण्डाली, दृष्टिशूल... वारम्, नासात्र, नि, निद्, परदा, प्राताल, प्रवास, मद्, रमाद्, वचन, वृषती, संनार्-गे, सम्, सहस्रिष...र्ध्व, रव, सच्छन्द, हंस

*गन्ध अधि, आ, उप, उपसम्, समुप गन्ध- ४अ, आसोपदेश, ज्ञान, ३भक्ति, योगिक, स्वप्नी *गन्ध-ता- ४अ *गन्धमान- अभि *गामिक- आ *गामिन्, नी- ४अ, आदित्यपथ, अधस्, अत्र, अन्ध, ऊर्ध्व, श्रुतलप, श्रुतवृ, ब्रह्मरन्, वायुपुर, १सत्य, सर्वे जङ्गम- स्थावर, १स्तिर *गञ् > गज- भञ्, दिश, घन, वनगत, शृप गजे(ज-इ)न्द्र- गत *गण > गण- अनन्त, अनेक, अनेकयुध, अशीष्ट, अशेष, अहृत् आपस्, इन्द्रि, ऋष्यल... रस्, ऋतु, कोटिकोटि, गुण, गो, गोपगोपी, जगत, दैत्य, नक्षत्र, नरक्य...स्, नाडि, नाना, पञ्चिन्, पञ्चरागमणि, पशुपक्षिन्, पुलिन्द, ब्रह्मवि-श्ववादि, ब्राह्मणभूषा...द्, म-स्मन्, भूत, मणि, १मरुत्, महत्, २मातृ, सुनि, यज्ञगन्ध-वासरस्, यज्ञराजसभूत, योगि-नी, रज्जु, खाल, १वर्ष, २वासना, वृष, १शिव, पद्क, ६स, सर्व, २सुर, स्व गण-प- नन्वादि, नाना गण-पति- क्षिप्रप्रसाद, दशडे-श, २प्रध, महत्, श्री, हरिदा गणेश(ई)श- -या: वउ २, ९; ३, ५. [०श- १आदि, १सद्] गणेश(ई)शवर- भूत *गण, ना- अनन्धभाव...गुण, गुण, शशो...गुण

*गणित- ४अ°
 *गण्य- अण°, नियमानन्दविशेष°
 √गणद् (*वधा.) > गण्ड- कलक-
 मय***त°, ब्रह्माण्ड°
 *गण्ड-शूल- शिरःशूल°
 गत्य, गध- √*गच्छ्, गम् (परि.) द्र.
 √गद् नि°
 *गद्- ४अ° जरा°°
 गदा- कौरुभ°°, १वज्र°°, १शङ्ख°°,
 सुदर्शन°°
 *गद्गद्- ६स°
 √गन्ध् > गन्ध- ४अ°, अशुचि°,
 आमोद°, गुण°, जिह्वा°, तद्°,
 दिव्य°, दुर्°, धूम°, नाना°, पुष्प°,
 पुष्प°, पृथिवी°, प्रपञ्च°,
 १ब्रह्मन्°, भिदा°, २रक्त°, विष्°,
 शब्द°, १सत्°, सर्व°, सु°,
 १सुनाद°, सुरा°, सुवर्ण°
 *गन्ध- (क)- सु°
 *गन्ध-मादन-वन- मधुरावन°°
 *गन्ध-माख्या (व्य-थ) मुलेपन-
 १कृष्ण°, २रक्त°, २श्वेत°
 गन्ध-वल्- ४अ°
 *गन्ध-सार-धूप- कापिलाज्या-
 वित°
 *गन्धा (ग्य-थ्या) द्य- परस्पर°
 *गन्धि- डुर°, सु°
 गन्धर्व- किंनर°, १देव°, मनुष्य°,
 २यक्ष°, सर्प°, सिद्ध°
 *गभस्ति- अक्षय°, आदित्य°°
 गम्भीर- अति°, क्षिमित°°
 *गम्य, गम्य-ग- गम्यमान- √*गच्छ्,
 गम् (परि.) द्र.
 १गर- √गृ (शब्दे) परि. द्र.
 २गर- √गृ (निगारणे) परि. द्र.
 गण्ड- ४अ° भिषि ७, १. [ट-
 अनन्त°, कौरुभ°°, १जयन्त°,

पाताल°, प्रणव°, महत्°,
 महाप्रणव°, १शङ्ख°°]
 गारुड- २प्रन°
 *गण्ड-पञ्चा (ख-अ) क्षर- प्रणवसं-
 पुटित°
 *गण्डपञ्चाक्षरी- नीलकरण-
 च्यक्षरी°
 √गर्ज् > *गर्जित- उदात्त°°
 १गर्त- अशच्छास्त्र°
 गर्दभ- जरठ°, धूम°, खान°
 गर्भ- -भं: वृ ६, ४, २२; १; १. [भं- अग्नि°,
 अजना°, अम्भोदह°, उदितौ-
 दाव्य°°स°, कठवल्लो°, कदलो°,
 जगदुद्भव°, तडित्°, तृण°, त्रि°,
 द्वौ°, पट°, वि°, शब्द°, पङ्-
 योनि°, रोहप्रणय°, हिरण्य°]
 + √गर्भि > गर्भित- २श्वेद°, सर्व-
 प्रपञ्चाधार°, साध्य°
 *गर्भो (भं-उ) पति- जरा°°
 √गर्व् > गर्व- १काम°°, निन्दा°
 √गर्ह् > गर्हित- ४अ°
 √गल् (*वधा.) नि°, निर्°, परि°,
 प्र°, वि°
 गल- अभ्राम°, गुल्फ°, नि°, १विप°,
 श्रेत्र°
 *गल्व्- वि°
 गलित- निर्°, परि°, प्र°, वि°
 गय- गधी- गो- (परि.) द्र.
 गहर- गिरि°, गुण°, गृह°°
 *गा अति°, अधि°, अनु°, अप°,
 अभि°, आ°, उप°, परा°, परि°
 *गा- पुरण°
 गात्र- ४अ°, चयल°, चिभिरिणी°,
 निर्मल°, मस्तक°, गृत्°, सर्व°
 √गाप् > गाप- ४अ°
 गान्धार- पङ्क°°

गाभिक-, गामिन्- √*गच्छ्, गम्
 (परि.) द्र.
 गाय- √गै (परि.) द्र.
 गार- √गृ (निगारणे) परि. द्र.
 √गाद् अव°
 गाढ- > *गाढ-तम- दीप्यमान°
 गाढतमो (म-उ) पम- वि-
 स्फुरतारकाकार°
 गाढ-प्रेमन्- अत्यन्त°
 *गाह्य अव°
 गिरि- अनात्माख्य°, गृह°, गोवर्धन°,
 पातकौष°, पूर्ण°, शूर्यागार°°
 गिरि-ज्ञा- वीरभद्र°
 १गीर्ण- √गृ (शब्दे) परि. द्र.
 २गीर्ण- √गृ (निगारणे) परि. द्र.
 १गु-
 २गु- गो- (परि.) द्र.
 *गुच्छ- पुष्प°, २मुक्ता°, हरितपी°°
 ष्य°
 *गुच्छ-फल- अनन्त°
 *गुच्छ-पुष्प-पराग- निगूढ°
 *गुटक- सद्गन्ध°
 *गुटिका- यावत्सद्गन्ध°
 गुड- > *गुडा (ड-आ) दि- अपय्या-
 दित°
 गुण- ४अ°, अग्नि°, अम्य°, अहरत-
 भेद°, अशिमामि°, अन-यमा°°
 त°, अभिमान°, अलौकिक°,
 अव°, असीम°, आत्मज्ञान°, आ-
 त्मन्°, १आत्मरति°, उद्गारादि°,
 एक°, एकादशन्°, कटाक्ष°,
 कर्तृ°, कल्याण°, कारण°, १को-
 टि°, कोटिकोटि°, क्रिया°, गन्ध°,
 गीतगान°, चतुर°, चातुर्य°, जष-
 न्य°, जन्मन्°, २जाति°, जीव-
 प्रय°, तद्°, तमत्°, तादृश°,
 तितिसाक्षा°°दि°, त्रि°, दि°:

१) व्यु. = योग- । २) व्यु. = कण्ठावरोध- । ३) वैश १ यद. = रिस- । ४) = तदाद्ययोपनिषद्विशेष- ।
 ५) = तदाद्ययोपनिषद्विशेष- । ६) श्र ५, ७८, ७ । ७) श्र १०, १८४, ३ । ८) नापा. द्र. । ९) यया. द्र. । १०) गृध.
 (१२०२) दनि. संख्याविदेशः द्र. । ११) व्यु. = स्तपक- । १२) व्यु. ।

नक्त्, निर्, पक्त्, वृथिवी, प्र, २प्रतिपत्ति, प्राच्, प्राये-
...करण, बहु, भाग, मणि, महत्, महत्वादि, मैत्र्यादि, मोह, योग, रजस्, रत्नसत्त्व-
समस्, १रति, रस, १रूप, लोहितशुक्लकृष्ण, वरणाङ्क, चायु, वि, विद्या, विवक्षित, विरोध, रात, शब्द, शमादि, शीतोष्ण...मस्, म्, ६स्, संवादिन्, सत्त्वतमस्, सत्त्वज-
स्तमस्, सत्वादि, सप्तचत्वा-
रिंशद्वयं, २समान, सर्व, सर्व-
धर्म, सर्वभद्रय, सहस्र, २सौम्य, २स्पर्श, स्व, स्वर, इविस्

+गुण(-रु)- अद्वयत्वादि
गुण-गणना- अति
+गुण-गान- सदारासमीडाप्रकार
+गुण-गण-योग्य- प्रत्यय...दात्
+गुण-ज.ल- विक्षित
गुण-त्रय- निर्धत
गुण-मद्र- अति
+गुण-रूप-गान- संस्थापक
गुण-वत्- वन्तम् सु १, २, ६.
[°त्- अतिसेवापर]
+गुण-संचलित- अति
+गुण-माहर- अपार
+गुण(ए-अ)गुण- विधुत्
गुणा(ए-अ)नीव- मायातीव
गृह- उपरध, पाणि
+गृह-शूल- अज्ञशूल, शिर-
शूल
+गृदा(ह-आ)वर्त- १द्य
गृदा- गृद
√गृप्>उगृप् अगु, वि
गृप्त- आरम्भ, प्राकार, गारसंधा-
पन्, ६स्, सु

+गृप्त-तर- ६स्
गृप्ति- कर्मन्, १महन्, रक्
गोष्- अगु, शारवतधर्म
१गोष्- सर्व, सु
+गोष्मान- सु
उगृप्(प्त)>प्सा- २धातु
+√गृम्फ>+गृम्फित- भरकत, २मु-
क्ता, सुवर्णतार
गुरु- -रुच्यः १शैल शी, [°र- उक्ता-
चरण, ऊर्ध्वान्नाय, एक, जगत्
तद्, १देव, पर, परम, पितृ, प्र, मातापितृ, १विरव, शान्, १शिव, धी, १सत्, समुदाय, सर्व, सर्वलोक, १स्य, स्व, हेरम्ब]
+गुरु-कपाल- महाचीन
+गुरु-चैतन्य- धी
+गुरु-तल्प- स्वर्णस्तेय
गुरुतल्प-गमन- ब्रह्महत्या
गुरु-दा-गमन- ब्रह्महत्या
+गुरु-देव-प्रसाद- अनेकजन्मसं-
स्कार
+गुरु-पट्टक-गण- गण वरा २,
६५
+गुरु-हृथा- समस्तपा...तक
+गुरु(र-उ)पदिष्ट- विधिवत्
गुलिक- अनन्त
+गौलिक- गृह
गुल्फ- -रुकी जाद ३, ६, १. [°ल्फ-
गृह, १खन्, १दक्षिण, दक्षि-
णैतर, पाद, पृष्ठवंश, धोत्र, १सत्य]
+गुल्फ-शूल- अज्ञशूल, शिर-
शूल
१गुल्म- १द्य
+२गुल्म- -तर, पर्वत, पुष्प, वृक्ष
+३गुल्म- >+गुल्म-शूल- अज्ञ-

शूल
√गृह निः
१गृहा- एकान्त, पुनर्, बुद्धि,
सर्वभूत, १हृद्
१गृह- ज्ञान, १देव, मस्तक, महत्, राजन्
गृह-तम- सर्व
+गृह-प्रकार- १प्रकान्
+गृह-शूल- शिरःशूल
+गृहो(ध-उ)पनिपद्- २देव
गृह- अति, अन्त, अन्तर्गतप्रमा,
नि, सु
√'गृह, प्रह> निपृञ् अगु, अगुसं
अपि, अग्नि, आ, उद्, उप, उपवि, उपसत्, उपोद्, नि, निर्, परि, प्र, प्रति, वि, ज्विनि
सम्, समुत्, समा, संपरि
गृह- -हे तांप १२९ : ३६. [°ह-
अग्निहोत्र, अन्त, अगुन्, अहंकार, कलत्र, कार, १देव देह, २धारा, १नन्द, निकृञ्, पक्त्, पक्षसमन्, पर, पितृ, पितृ, १पुत्र, ज्ञार्थि, १म्, महत्, मोहन, वपुस्, इपभादु, वृषभानुनन्द, शय्या, शान्ति, १शिव, शून्य, शून्यागार, स्वपच, सुधिक, स्व, स्वपुत्र]
+गृह-द्वय- शान्ति
गृह-पति->गार्हपत्य- आह-
वनीय
+गृह-याग- ल्यक
गृह-स्थ- वानप्रस्थ
+गृहा(ह-अ)ङ्गण- तुष्णा
गृहा(ह-अ)धम- स्व
गृहिन- ब्रह्मचारिन्
१गृह- स्व
२गृह(अ)ङ्गण-

a) वस. > कव. । b) गृप्. (५२७४) 'गृह->-र' इत्यत्र यनि. शोधः इ. । यच्च तत्र टि. तथैव इ. । c) अख्याः यो. अथा. । d) गृप्. (५२७६) यनि. संख्यानिर्देशः इ. । e) व्यु. ? = ह्युप- । f) व्यु. ? = अज्ञविशेष- । g) वया. इ. । h) अख्याः सं. अथा. । i) = मृत्प्रमथ- । j) गृप्. (५२७९) यनि. संख्यानिर्देशः इ. ।

गृहीव, ता- ४अ०, अनु०, १उप-
 यान०, गन्धर्व०, तृष्णाप्राह०,
 १श्रुति०, नि०, परि०, प्रति०, २स्ती-
 ला०, सम्प०, समनु०, २हस्त०
 + गृहीति- आत्मन्, शरीररूपक-
 विन्यस्त०
 गृह्ण- उपोद्, प्रति०
 + गृह्णान- अनु०
 गृह्य अनुसं०, अपि०, आ०, उप०, नि०,
 परि०, प्र०, प्रति०, सम्प०, संपरि०
 + गृह्य- ४अ०, इन्धनयोनि०
 १ग्रह- ४अ०, अति०, अनु०, आद्य-
 न्त०, उप०, उपवि०, उपसम्प०,
 गम्भीर०, तद्, २दधि०, दुर्नि०,
 नि०, नियम०, परि०, प्र०, प्रति०,
 वि०, विनि०, संधि०, सम्प०, सप०,
 सर्व०
 २ग्रह- अहंकार०, अष्टादश...नी०,
 उप०, १उत्तम०, गन्धर्व०, चन्द्र०,
 उष्ट०, नवन्, यक्षरा...ण०, २वि०
 + ग्रह(ह-श्र)पि-मण्डल-लानि
 त्रिवि ५, १२०.
 ग्रहण- ४अ०, आनन्द०, उद्, कल्प-
 ना...रूप०, गन्ध०, गोमय०, ग्रही-
 तृ०, चराचर०, ज्ञानसंग्यास०, देव-
 ताप्रसाद०, नाद०, नामन्, प्रण-
 यमहावाक्य०, भिषज्, १रूप०,
 विषय०, शब्द०, शब्दाद्यर्थविषय०,
 सष्टत्, संग्यात०, सम्प०, समीक-
 रण०, १सूर्य०, १सोम०, २२पर्य०,
 स्वगमननिरोध०
 ग्रह- अति०, २असत्, गृष्णा०, मूढ०
 ग्रहक- अनु०, ग्रहण०, प्राण०,
 धर्मिन्
 + ग्रहम् नामन्
 ग्रह- ४अ०, अनु०, ग्रहीतृ०, निद्,
 प्रति०, सुदि०, १भाव०
 + ग्रह-नाकि- तद्

+ जिघृक्षमाण- अभि०
 √ गृ (शब्दे) प्रति०
 + १गर- प्रति०, मन्त्र०
 गिद्- आदिम०, व्यक्ताव्यक्त०
 १गोर्ण-
 √ गृ(निगरणो) उद्, नि०, समुद्
 + २गर- अज०
 + गार- उद्
 + २गोर्ण- नि०, समुद्
 गेह- १शिव०, स्व०
 + गेह(व् >) नी- सुक्ते
 √ गे > गा अभि०, आ०, उद्, उप०,
 परि०, वि०, सम्प०
 + ४ग- १छन्दस्, सामन्
 गाव्- आ०, उद्
 गाथा- वाक्येवाक्य०
 गान- उप०, १काम०, भीत०, गुण०,
 गुणरूप०, सामन्, कु०
 + गाय- पुरस्
 गायत्- उद्, सम्प०
 ३गायत्र- १ग्रहन्
 गायत्री- अनङ्ग०, अव्यक्त०,
 १आदि०, नारायणद्वयप्रीव०, नि-
 चृत्, नारसिंह०, वृसिंह०, वृसिंह-
 सुदर्शनब्रह्मन्, यजुस्, विष्णु०,
 २वेद०, वैष्णव०, १शिव०, सहस्र०
 + गायत्री-जप- पदसह...त्
 + गायत्री-द्वय- रामकृष्ण०
 + गायत्री-प्राण-स्थापन-
 मन्त्रयन्त्राख्य०
 गायमान- आ०, सम्प०
 गीत- उद्, उदात्त०, ३कल०,
 नृत्य०, वि०, शाल्, सम्प०
 गीथ- उद्
 गीयमान- उद्, सम्प०
 गो- अन्य०, एकादशसहस्र०, १कफिला०
 १कोटि०, २राज०, दिज०, द्विसहस्र०
 मनुष्य०, श्व०, १सूर्य०

+ गव- गोपगोपी०, सम्प०
 + गवी- १ग्रहन्
 गवा(व-श्र)क्ष-> गवाक्ष-क-
 १जाल०
 गव्य- पञ्चन्
 + २गु- अनुष्ण०, २चित्र०
 गो-कुल- १शिव०
 गो-चर- ४अ०, अतीत०, अव-
 स्थाच...य०, आत्मन्, इन्द्रिय०,
 चित्त०, तच्छब्द०, तद्दृष्टि०,
 दृशि०, दृष्ट०, ध्येयैक०, परमेष्ठिन०,
 द्रव्यविदृष्टि०, भावनामात्र०,
 भावाभाव०, चाप्रसन्न०, नाष्टमनस०
 वायु०, विषय०, सकलागम०,
 सदानन्दा...क०, सर्व०, सर्ववेदा-
 न्त०, स्वस्वरूप...न्द्रिय०, हृदय०
 गो-तम-> गौतम- २वसिष्ठ०, श्री०
 गो-श्र- ४अ०, किम्, २कुल०, वी-
 ५स०, सांख्ययान०
 गो-धूम- ६स०
 गो-प- इन्द्र०
 गोपी- २कृष्ण०, गोप०
 गोपि-(क >) का- गोप०
 + गोपी-चन्दन-वचन-
 नम् कृपु २११.
 + गोप-कन्या- २ग्रज०
 गो-पा- द्वार०
 गो-पाल- लक्ष्मीनारायण०, श्री०,
 गोपाल-तपन्- २प्रश्न०
 गो-पुर- धीमत्
 + गोपुर-द्वार- शिवधर्मा...त०
 + गो-म(त् >) ती- गहा०
 गो-मथ- गोमूत्र०, तद्, नृण०, प्रश-
 स्त०, मृद्, शुष्क०
 १गो-मुख- गपु, २२८३ द.
 १गो-मुख- २स्वस्तिक०
 + ३गो-मुख- पथव०

a) कर्मणि षष्प। b) महर्षि इति निसा। c) =शब्द-। d) गपु. (२२८०) यनि. संख्यानिर्देशः द.।
 e) पा १, २, ४८। f) द. गपु. २१७००। g) =नदीविशेष-। h) व्यु. ? =वाद्यविशेष-।

+गो-रक्ष->+गीरक्ष- कृवि°
 गो-रोक्षन्- चम्पक°°
 गो-वर्धन- श्री°
 गो-(स्य)घ- १शिव°
 गोष्ठी- देवाभिमुख°, धूर्त°, पर-
 स्पर°, मुक्तासनधुख°, यथा°, सं-
 कल्प°°
 +गो-सुर- ६स°
 +गो-इत्या- समस्तपात...क°°
 +गोधा- > गो(धक>)धिक- गृह°
 गोप्यमान- ✓गुप् (परि.) द.
 गोमती- १-३गोमुख- गो- (परि.) द.
 १गोल- १भू°
 गोल-क- कदम्ब°, तप्तदधुवनो-
 चित°, प्रह्लाण्ड°
 +२गोल- १कुण्ड°
 गौर- क्षीर°, चम्पक°, खल°
 १गौरी- -री मउ ३, १४.
 गौलिक- गुलिक- (परि.) द.
 ✓प्रध्, =भू अभि°, उद्°
 मधित- २अक्ष°, अनेकपु...ता°,
 अनेकतराता°, उद्°, कुम्भविदुम-
 लता°, मानामण्डिमुक्ता°, पट्टोरी°,
 पधरा...ता°, पुष्पलता°, प्रकु-
 क्षितलता°, मणि°, मणिलता°,
 मण्डिपुमलता°, मुक्तालता°,
 लता°, विदुमल...ता°, इराप्र°,
 सुवर्णलता°, सुवर्ण...ता°
 प्रध- अल्प°, निर्°
 प्रन्धि- अद्वैत°, अनादिदुर्वासना°,
 अविद्या°, इच्छा...क्षन्°, १गुहा°
 १चित्°, निकुञ्जानालता°, निर्°,
 पर्वन्°, १मक्षन्°, महत्°, १रुद्°,
 निच्छिन्न°, विष्णु°, सर्व°, श्रावु°
 स्फटिक...श°, १हृद्°, हृदय°
 +प्रन्धि-त्रय- गुणत्रयसमुद्भूत°
 +प्रन्धि-संख्य- मुकि°

✓प्रस् उदुद°
 +प्रसन- १सर्वशक्ति°
 प्रम- ४अ°, मृन्मुञ्जा...रा°
 प्रास- ईश्वर°, उदुद°, महत्°,
 सर्व°
 +प्रासरु- उदय...ल°
 प्राम- इन्द्रिय°, २दोष°, १नन्द°,
 २पुर°, भूत°, मन्त्र°, लिङ्ग°,
 सप्त°
 +प्राम-गी- १सूत°
 प्रायन्- युक्त°
 प्राहम् ✓/गृह, प्रह (परि.) द.
 प्रीय, या- आनन°, उत्कण्ठ°, उ-
 रस्°, काय°, दरान°, १नील°,
 ३पीत°, सु°, हय°
 प्रवेय- हार°
 +प्रीत-शिरः-काय-, +प्रीत-गिरः-
 शरीर-, +प्रीत-गिरस्-, +प्री-
 वो(व-उ)दर- १सप्त°
 ✓रत्नै>ग्लापि, >ग्लापन- वि°

घ

+घ- ✓हृत्(परि.) द.
 ✓घट(बधा.)>घाटि- उद्°, उप°,
 वि°
 १घट- वि°
 २घट- आन°, कृत्तक°, २घट°,
 रत्न°
 +घट-मालिका- जलयन्त्ररथ°
 घटा(ट-आ)काश- उपाधिविनि-
 मुक्त°
 घटित- उप°, केशच्छ्रया...णि°
 मणि°, मणिकुण्ड°, हीरकावली°
 १घ(टि)>टी>+१घटि-(क)>का-
 मणि°, सुवर्ण°
 २घ(टि)>टी>२घटि-(क)>का-

+घाटन-, +घाट्य उद्°
 +✓घट्ट सप्त°
 +घटन- दान्वादिस्थान°, सम°
 +घटित- सम°
 १घ(एट)>ण्टा->१घण्टिका-
 २घ(एट)>ण्टा- कांस्य°, चन्द्र°
 +घण्टा-निनाद- दीर्घ°
 +२घ(एटक)>ण्टिका- सुद°
 १घन- अदयानन्दविज्ञान°, आनन्द°,
 आनन्दचित्°, एक°, एकीभूत-
 प्रज्ञान°, १चित्°, २चैतन्य°,
 जीव°, १ज्ञानानन्द°, प्रमानन्द°,
 परानन्द°, धीन°, प्रज्ञा°,
 प्रज्ञान°, १प्रह्वन्°, रस°, १विज्ञा-
 न°, विज्ञानानन्द°, शिवविज्ञाना-
 नन्द°, सुदुर्बोध°, १सत्°, सत्य-
 चित्°, १सदानन्द°, सु°, सुवर्ण°,
 २सौम्य°
 घन-वास(ना)- प्रशात°
 +घन-सार- चम्पक°, ग्रीहार°°
 २घन->+घन-रात्रि- प्राग्भैरव°
 घर्ष- घर्षण-, घर्षविरवा, ✓घृष्(परि.) द.
 ✓घस्->जिघत् अउ°, प्र°, वि°
 +घस- वि°
 जघ- प्र°
 +जिघत्स- वि°
 घात- पातक-, घातम्, घातिव्-
 ✓/हृत्(परि.) द.
 घार- ✓घृ (परि.) द.
 ✓घुष् आ°
 घोष- ४अ°, कल्पराजनादि°,
 धूमिमन्थन°, श्रमक्षन्°, मेघ°,
 विवित्र°, सु°
 घोवि(र्) > गौरी- -गी नद्
 ९°
 +घोष्ट- आ°
 ✓घु(बधा) आ°

a) दस। उप. =१घृर- 1। b) व्यु!। c) गपू (घृ२८४) यनि. संख्यानिर्देशः द.। d) व्यु! =जारज- 1।
 e) गपू. (घृ२८६) यनि. संख्यानिर्देशः द.। f) गपू. (घृ२८७) यनि. संख्यानिर्देशः द.। g) =मावाविरोप- 1।
 h) गपू. (घृ२८७) यनि. घोषः द.।

+घार- आ°

घृत- नम् वा २९. [०त- चीर°, गो°, तिल°, २दधि°, पुष्प°, १मधु°, ६स°]
घृत-रस- गोरस°, दुग्धरस°

√घृण् (दीप्ति) > घृणि- -णि: त्रिवि ७, ४४१°

√घृप् > घर्षि सम्°

+घर्ष- उषलाङ्गूल°, सम्°

+घर्षण- +घर्षयिस्वा सम्°

+घृष्ट- वैराम्योपल°

+घृष्य सम्°

१घोर- अनन्त°, १घोर°

२घोर- ४अ°

घोष्ट- √धुप् (परि.) द्र.

घ्न- √ह्न (परि.) द्र.

√घ्रा अभि°, आ°, उप°, व्या°

+घ्न- व्या°

घ्राण- गन्ध°, चतुस्र°, २त्वच्°, पाद°, पृथिवी°, मत्तक°, शक°, ३ध्वण°, भ्रोज°, श्रोत्र°

घ्राव्- ४अ°

ङ

हे > हेरे-यन्त- स्व°

च

चं व ४३१: १६.

+√चक्षु > चक्ष- कुटी°

१चक्ष- अतान°, अष्टव°, अष्टार°, अमुरान्तक°, आ°, आसार°, आक्ष°, आधार°, आहत°, इन्द्र°, एक°, कण्ठ°, २क्षाल°, कुण्डल°, १ए°, १वि१°, विन्ता- निचय°, जगन्°, जगन्मोहन°

ज्वाला°, तद्°, तालु°, तालुका°, तृतीय°, त्रिशतार°, दशार°, सूत°, द्वितीय°, नवन्°, नाडी°, नामि°, नारसिंह°, निवाण°, १धी°, धृत°, पञ्चम°, परमहन्°, प्रथम°, १त्र- द्वन्°, १भु°, भृगोल°, भ्रू°, मणिपूरक°, महत्°, १मूल°, १म्यु°, २रथ°, वि°, विराज्°, वि- राज्य°, २विश्वरूप°, वैरिविदा- रिन्°, व्योमन्°, शक्ति°, १शङ्ख°, शतार°, शत्रुजित्°, शिशुमार°, श्री°, २पट्कोण°, पद्छतार°, पप्°, पष्टयर°, संसार°, सकल... ण°, संचार°, सप्तम्°, सप्तम्°, सम्°, सप्तज्°, सर्व°, सहस्रार°, सु°, सुदर्शन°, १सूर्य°, स्वराज्°, स्वर्णे°, स्वाधिष्ठान°, हृदय°

+चक्ष- (क)- वांस्य°

चक्रमाण- √कम् (परि.) द्र.

√चञ् (*वधा.) अभि°, आ°, परि°, प्र°

प्रति°, प्रत्या°, वि°, व्या°, संप्र°

+चक्षण- प्रति°, वि°

+चक्षव्- वि°

चक्षस्- वृ°

+चक्षण- व्या°

चक्षुम्- क्षु: मैत्रि ६, ६. [०स्-

४अ°, आत्मन्°, आत्मन्°, आ- वृत्°, जगत्°, ज्ञान°, जिह्वा°, पाणि°, गद°, पृथिवी°, १म- नन्°, मन:सहकारिन्°, मांस°, १धान्°, २वाम°, १विश्व°, वि- रवन्म्°, भ्रोज°, सु°, स्व°]

चाक्षुव- ४अ°

चक्षु: -भ्रोज- ४अ°

+चक्षुप्- (क)- ४अ°

√चञ्चु (*भक्षणे) > चञ्चु- नारात्°

+चञ्चु- क- पठ°

+चञ्चु-पुट- २रक्त°

+चञ्चुर- हेलावि***°

√चद् (*वधा.) > चाटि उद्°, प्र°

+चट्ट-> +चट्ट-चाट्ट-वचन-

संभोग°

+चाटन- +चाटि(त्)नी- उद्°

+चाट्ट- चट्ट°

√चण् (*भक्षणे) > चण-> +चण-

क- गोधूम°

√चण्ड् > चण्ड- पञ्चाल°, प्र°, २मधु°

चण्डाल- उप°, रवन्°

+चण्डाली-> +चण्डाली-गमन-

समस्तपा...क°

चाण्डाल- ल: ब्रह्म. [०ल- ४अ°, ५न°, शिवभक्त°]

+चाण्डाली- उच्छिष्ट°

+चाण्डालाल-आ)दि- आ°

+चण्डिरिति- गणेश°

+√चत् अप°

चतुर- त्रि°, द्वि°

चतस्र- अर्थ°, जाग्रदादि°, तुरीया-

दि°, सार्ध°, सुपुण्यादि°, स्वप्रादि°

चतुर्थ- अर्थ°

चतुर्थी- र्थां तु ८।°

चातुर्थिक-> +चातुर्थिक-उव-

र- अतिमयंकरज्वर°

चतुर-दशन्-> चतुर्दश-> चतुर्द-

शी- र्थी तु १०?।

+चतुर्दश-क- सर्वसंज्ञोभिर्यादि°

चतुर्दश-करण-मन आदि°, स्व°

चतुर्दश-मुवन- तप्तदग्धोचित°

भृगुदि°

+चतुर्दश-वायु-भेद-प्राणादि°

चतुर्दशा(श-अर- सर्वसंज्ञोभि-

र्यादि°

२चतुर-द्वार- १

a) टीका १०, १५, १। b) तु. ग. १२३३b। c) धृषा इति सात। d) व्यु.। e) विप. वा नाप. या।

f) ग. (१२११) यनि. शोष: द्र.। g) र्थे: इति पा.। यनि. शोष: द्र.। h) र्था: इति पा.। यनि. शोष: द्र.।

i) ग. (१२११) संप्रसारणे चतुर-द्वार- शयन यनि. संप्रसारिर्दश: द्र.।

चतुर-मास-> चातुर्मास्य- ४अ°

+ चातुर्मास्य-प्रत-नियम-युक्त°

चतुर-मुख- -त्राय मउ ३, १८.

[°स- निशाकर°]

चतुर-वर्ग-फल- सर्ववेद°

चतुर-वर्ष-> चातुर्वर्ष्य->

+ चातुर्वर्ष्य-भैक्ष-चर्ष- ययो-पपन्न°

चतुर-विंशति- केशवादि°

चतुर्विंशति-तप- स्वकल्पित°

+ चतुर्विंशति-मन्त्र- केशवादि°

चतुर-विध-> चातुर्विध्य- एकैक-मात्रा°, परिमाण°

चतुर-यूह- वासुदेवादि°

+ चतुर्-चरवारिंशद्-वर्ष- -वांशि

छां ३, १६, २.

चतुर्-क-अनुबन्ध° ऊर्ध्व°, मास°

चतुर्-व्य- अन्तःकरण°, अवस्था°,

अवस्थाचतुष्टय°, आयुध°, ऊर्ध्वग-

रेखा°, कोण°, कोश°, निकोणाम°

दशा°, ४पट°, पाद°, पुरुषार्थ°,

भूपुर°, माणा°, २योग°, रेखा°,

लक्ष°, २वर्ष°, त्रसृ°, वैराम्पादि°

साधन°

+ चतुर्-पट्टि- षोडशन्°

चत्वारिन्-> चरवारिंशत्- अष्टन्°

एक°, चतुर्°, त्रि°, द्वि°, पञ्चन्°,

षट्°, सप्त°

तुरीय- -यम् काम ३. [°य- अति°

२जामत्°, २जामत्°, तद्°, तैज-

स°, द्वितीय°, १तुर्व्य°, २प्राप्त°, वि-

द्या°, १विध°, योऽशान्तस्य°,

सुपुत्र°, स्वप्न°]

+ तुरीय-भाग- आकाशा 'ण°,

भूतसर्व°, सत्त्व°

+ तुरीयां(न-अं)श्च- अकार°, अ-

र्धमात्रा°, उकार°, मन्वर°

तुरीया(य-अ)तीत°- ईशावा-

स्य°, कुटीचक्र°, २जामत्°, २

परमहंस°, सर्वपरिपूर्णे°

+ तुरीया(य-अ)श्रम- प्रसन्नचर्षा-

धमादि°

१तुर्व्य- ४अ°, १तुर्व्य°, २प्राप्त°, रथ-

ल°

१चतुर- अशेष°

चातुर्थ- कामकला°, चित्तखञ्जनमी-

न°, १ध्रमर°, स्व°

+ चातुर्थां(र्थ-अ)सीम-गुण-

ज्ञ- अत्यन्तमनोहर°

चन किम्°

✓चन्द्र°(बधा.)> चन्द्रत- अगुर्°,

केसर°, गोपी°, चम्पक°, २प्र-

वाल°°, विष्णु°, शीतल°, श्री°,

रज्ज°

चन्द्रन-वृक्ष- प्रफुलित°...न°

चन्द्र- अत्रच्छा...त°, अर्क°, अर्ध°,

१कोटि°, २कृष्ण°, २जल°, द्वि°,

नख°, परिपूर्णे°, पार्वण°, पूर्ण°,

प्रातस्त्रिच...र्थ°, रवि°, १राग°,

१चन्द्र°, शत°, राम्यु°, १शिव°,

संस्थ°, १सूर्य°, १सूर्य°, हरि°

चन्द्र-ऊक्ष-ग्रह-संबन्धरा-

(र-आ)दि- -दयः मैत्रि ६, १६°.

+ चन्द्र-कान्त°- पद्मराग°

+ चन्द्रकान्त-मञ्जि-जल-

मन्त्र- तटम्...टी°

+ चन्द्र-अङ्ग- १राग°

+ चन्द्र-भा(ग>)गा°- चन्द्रा-

वली°

चन्द्र-मण्डल- १गुणा°

+ चन्द्र-म(य>)पी- १चित्°

चन्द्र-मस- बोध°, १सूर्य°

चन्द्रा(न्द्र-अ)पण-> चान्द्रा-

पण- एकरात्र°, कृच्छ्र°, नाना°

+ चन्द्रा(न्द्र-अ)र्ध- ३धौत°

चपल- १अङ्ग°, नेत्र°, पाणिपाद°,

१वान्°

चापल- ४अ°, प्रशागत°, विषय°,

सद्यःसंयुक्त°

✓चम्(बधा.) आ°

चमत्-> चमत्✓क(करणे)>

चमत्-कार- सत्त्व°

+ चमन्...°, + चम्य°, + चान्त...° आ°

चमस- महत्°

चम्पक- आम्र°, कनक°

✓चर°(बधा.)> चारि, चरति° १आ

११; चरिच शदि २३:४° [अनु°,

अनुसम्°, अनुप°, अग्नि°, अभ्युद्°

आ°, लद्°, लप°, निम्°, परि°,

प्र°, प्रवि°, प्रोद्°, वि°, विनिम्°,

व्युद्°, सम्°, समा°, समुद्°]

चर°- ४अ°, अनुसम्°, एक°, १का-

म°, कुटी°, २ख°, खे°, १गुहा°,

गो°, दुस्°, पक्षीय°, १भू°,

शैवर्°, तम्°

चरा(र-अ)चर- ६स°

+ चराचर-चेदित- ६स°

+ चराचर-हत्या- समस्त-

पा...क°°

१चरण- अनु°, आ°, कर्म°, गो-

त्रारि°, परि°, परेच्छा°, पुरस्°

भिक्षा°, रमणीय°, समु°

२चरण- २कर्म°, १दक्षिण°, सुनि°,

श्रीमलारायण°, सङ्घत्°

+ चरण-समप्रवयव-मुख-

व्यक्ताव्यक्तकारण°

+ चरणा(ण-अ)कु(लि>)ली-

विशद°

+ चरणा(ण-अ)रविन्द- त्रिदश-

...त°, सूर्यमण्ड...व्य°

चरव- -रन् शां १, ४. [°व-

a) बघ्रा. द्र. 1 = अथवस्याविशेष- , उपनिषद्विशेष- , संन्यासिविशेष- प्रन्. । b) °मृक्षे° इति सात. ।
 c) धा. चाकचक्ये वृत्तिः द्र. । d) धा. अशने वृत्तिः द्र. । e) उ. गृ. ६१०२धां । f) अच्चाः सं. अया. । g) कर्तारि
 भावे वा कृत् ।

अनुसं, आ, उद्, निस्, परि,
प्रं, वि, सम्, समा]

+चरमाण- सम्

चरित- अज्ञातं, आ, उदार,
दुस्, १रुद्रं, सम्, हुं

+चरितवत्- आ

+चरितृ- परि

चरित्र- अनन्त, नानात्वा...व

+चरित्र- अत्यद्भुत

+चर्य, र्या- अज्ञातं, २कु, गो,
परि, पुरस्, १ब्रह्मन्, मिच्छा,
भैक्ष, भैक्ष्य, वेदव्रत, हंससूत्र

+चर्यमाण- परि

चार- अनूप, अभि, आ, उद्,
उप, कर्मन्, १काम, प्र, पवि,
१मनस्, १यथाकाम, १योग,
वि, १विश्व, ध्यामि, सम्,
समा

+चारक->+चारक-विधा- ६स

+१चारण- उद्, प्रं, वि, सिद्ध

+२चार(ण)णा- वि

+वारयत्- प्रोद्

+वारयमाण- परि

+चारिक- आ

+चारित- उद्

+चारितवत्- वि

+चारित्- अष्टु, १काम, क्रम,
चित्तकर्म, त्रिकृटादि, नासा-
भ्यन्तरं, परि, पुण्यायतनं,
१प्रकानं, यथा, विषयोचानं,
सम्, २सह, स्वप्न

+चार्यं उद्, प्रवि, प्रोद्, वि,
समुद्

+चार्यं- प्रवि

+चार्यमाण- उद्

+✓चर् परि

+चर्चन- गोपीचन्दन

+चर्(र्)वा- चन्दन

+चाचित- परि

चर्मन्- अस्थि, कपाल, चीर,
१त्वच्, द्वीपिन्, १ध्याघ्न

+✓चर्च्>चाचित- कोपाजगर

चर्षण- वि, १विरव

चर्षण- १विश्व

✓चल्> चालि, चञ्चल् उद्, परि-

निस्, प्रं, वि, विनिस्, सम्

चञ्चल- ४अ, अति

+चाञ्चल्य- खडनमीन,

चैतस्

+चञ्चल-गात्र- सदा

१चल- ४अ, निस्, परिनिस्,

विनिम्

चलनं- द्वायु, प्रं, हस्तपाद

+चलाचल- ४अ

चलित- उद्, वि

+चाल- शक्ति

चालन- गमन, छेदन, प्रेक्ष, वि,

शक्ति, सम्

२च(ल)>ला- ला पी छंद २: ८.

चाटन-, चाटिनी-, चांड- ✓चट्

(बधा.) परि. द.

चाणूर- केशिन्

चातुर्होत्र-

चान्त- ✓चम्(बधा.) परि. द.

चाप- ४शर

चामर- २धण्डा, छत्र, दीप, २

निरतिशयानन्द, महाच्छत्र,

६स

चामीकर- तत

चामुण्ड(ण्ड)>एडा- सिद्धि

चामुण्डी- २रक्त, चीर

+चामुण्ड(ण्ड-ई)शरी- सिद्ध

+✓चाय्, >+चाय्य, +चाय्य-

नि

चार- धूमन्

+चार-दारुण- जम् महा ३, ४, ४;

या २, १०.

चार्वाकर- जैन

✓चित्(बधा.) अप, आं, उप, नि,

निस्, परि, वि, विनिस्, सम्,

समुद्

+चय- उप, नि, निस्, परमा

नीं, परि, महत्, विनिस्,

सम्, समुद्

+३चित्- १पुण्य

चित्- अन्तर्बहिस्, कर्मन्, निस्,

परि, विनिस्, सम्, हेमल

+चितवत्- निस्

+१चिति- अप, प्रत्यच्, वि

+चित्य निस्, वि

चित्य->त्वा- अमि

+चिन्वत्, +चिन्वमानं- वि

१-२चिकित्सा-, १-२चिकित्सित-,

१-२चिकित्सेय- गपू. ४ ६४ २२.

+चिकण->+चिकण-सुमंन्ध-

केशच्छदा

चिक्रमिषत्- ✓कम्(परि.) द.

+चिक्रीत- आनन्द

✓चित् प्र

१चित्- अमितानन्द, अविच्छिन्न,

अन्यक्त, क, आनन्दं, एका-

न्तं, २चैतन्यं, १नित्यं,

निर्विकल्पं, बहिस्, महत्,

शुद्धं, १सत्, १सत्, १सत्यं,

१सत्यं, स्वप्रकाशं, स्वात्म-

ज्योतिर्मयं, खानुमूयिक

२चैत्य- ४अ, १चित्

+चैत्य-चिह्न- ४अ

+चिज्-उद्योतित- युद्धिगुहा-

निहित

चित्-पर- १ब्रह्मन्

+चित्-प्रकाश- १घन

+चित्-सागर- अनन्त, चिन्म-

धनाभिर्भूत

a) बधा. द. । b) कैर यद. । c) ग. (२१०१) द्यतनिदेशे बनि. तोष. द. । d) ग. (२१०१) हीत्र-

*चित्-सार- चिन्मथनाविभूत°
 चिद्-आत्मन्- चैत्यमुक्°, नित्य-
 मुक्त°, स्वकाश°
 चिद्-आदिस्य- अनन्त°
 १चिद्-भानन्द->चिदानन्द-
 मय- अमोघनि...त्°
 चिद्-घन- १नित्य°, परमानन्द°,
 ब्रह्मानन्दैक°, शा-त°, २सच्चिदा-
 नन्द°
 *चिदना(न-आ)तन्द्- अ-
 खण्ड°
 चिद्-रूप- चैत्यनिर्मुक्त°, भूतार्प°
 *चिद्-विलास- अनन्त°, नि-
 त्यानन्द°, परम°, विविध...न्त°
 चिन्-मय- परिपूर्ण°, वाचाम-
 गोचर°, स्वभाव°
 *चिन्मय-प्रासाद- अनन्त°
 सहस्रको...त°
 *चिन्मय-स्रक्षण- चित्स्र-
 द्रय°
 *चिन्मय-रुतम्म- सर्व...
 न्त°
 चिन्मया(य-आ)समं- अन-
 न्त°, चिद्रूपवि...म°
 चिन्-मात्र- अखण्डैकरस°, चै-
 त्यवर्जित°, १नित्य°, भववर्जित°,
 १विज्ञान°, सर्ववर्जित°
 चिन्मात्र-चिद्रूप- सदा°
 *चिन्मात्र-स्वरूप- देशका-
 ...त्य°
 रचित्- गपू. पृ३०५ द.
 रचिति-
 चित्त- ४अ°, अंतुबंध°, अनन्य°,
 अनेक°, भन्ताकरण°, अन्तर्°,
 अभ्यास°, आविष्ट°, ईश्वराविष्ट°,
 एक°, एकाग्र°, क्षीण°, प्रस्त°,
 २जाग्रद्°, तद्°, तपोविजित°,
 प्रलोक्य°, दिग्मवा...च°, दुग्°,
 १दृढ°, मित्यप्रबुद्ध°, निर्माण°

निम्°, पक्°, पर°, परमपरिपक्°,
 पाद°, पृथिवी°, प्रख...न°,
 प्रतिष्ठित°, प्रपद्यमुक्त°, प्रशान्त°,
 प्राणा...मु°, प्रायस्°, बहिष्°,
 भेदनिष्पन्द°, भ्रान्त°, मद्°,
 १मनस्°, यत्°, यद्°, त्यागविष्ट°,
 रसाविष्ट°, वि°, विभ्रान्त°, शुद्ध°,
 ६स°, सत्त्वह...म्°, १सम°, स्व°,
 स्वप्रदर°, स्वस्य°
 *चित्त(क)- ४अ°, निरोधक्षण°
 *चित्त-जीवा(व-आ)दि- भवि-
 प्यत्°
 *चित्त-द्रुपं- प्रक्षीण°
 *चित्त-पवन- अन्तर्लक्ष्यवि-
 लीन°
 *चित्त-लब्ध- गलित°
 चित्त-वृत्ति- अशेष°
 चित्त(त-आ)मन्- यत्°
 *चित्त(त-ई)न्द्रिय-क्रिया-
 यत्°
 *चित्ति- प्रायम्°, विप्र°
 चेतन- ४अ°, अखण्ड°, कर्तृ°, कृत्-
 स्व°, प्रत्यच्°, वि°, शुद्ध°, ६स°,
 सर्व°
 २चैतन्य- अन्तःकरण...त°,
 आत्मन्°, १आदि°, ईश्वर°,
 गुरु°, जीव°, प्रत्यच्°, बुद्धिप्रति-
 विम्बित°, १ब्रह्मन्°, भूत°, महत्त्°,
 विराज्°, व्यक्°, शुद्ध°, सर्व°,
 सर्वशरीरस्थ°, साच्चिन्°, सुख°,
 स्व°, स्वात्मन्°, षोडशा...य°,
 हिरण्यगर्भ°
 *चैतन्य-निज-मूर्ति-अख-
 ण्डशुद्ध°
 *चैतन्य-प्रासाद- बोधा...प°
 चैतन्य-मात्र->चैतन्यमा-
 त्र-रव- सर्व°
 *चैतन्या(न्य-आ)धिदेवता-
 अखण्ड...द्भार°

चेतयितव्य- ४अ°
 चेतस- ४अ°, अध्यात्म°, अन-
 न्य°, अनिर्वर्ण्य°, अन्तर्°, अप-
 हृत°, अयक°, अव्यक्तासक्त°, अ-
 संसृष्ट°, अवेशित°, उदार°,
 श्रुतु°, क्षीण°, ज्ञानावस्थित°,
 धर्मसमूह°, निःस्पृह°, नीरोग°,
 २नील°, पूर्य°, प्र°, प्रसन्न°,
 प्राण°, मंदाविष्ट°, मलिन°, मुग्ध°
 मोहित°, यत्°, युक्त°, रस°, लज्जु°,
 लोभोपहत°, वि°, विगलद्वर्जित°,
 विद्वल°, विषय...र°, शान्त°,
 शुद्ध°, ६स°, संशयाविष्ट°, संसार-
 दुःखा...त°, १सम°
 *चेतो-गृहीत- तम् गौ २, १,
 १०.
 १-रचित्- √चित् (परि.) द.
 ३चित्- चित- चितवत्- १चिति-
 √चि(वधा.) परि. द.
 २चिति- √चित् (परि.) द.
 चित्य, चित्या- √चि(वधा.) परि. द.
 १चित्त- रत्न°, वि°
 *चित्त(व-आ)दि-वर्ण-सूयं-
 प्रातर्°
 *चित्त(व-आ)दि-वर्णा(र्ण-ञो)-
 खण्ड-सूय-चक्र- प्रातर्°
 २चित्त- गपू. पृ३०६ द.
 ३चित्त- जगदुन्मेष°, शिवानन्दम...त°
 *चित्त-शाला- तद्°
 *चित्रि>चित्रित- मणिकण°
 *चित्री/क्षु>चित्री-कृत- शिवा-
 नन्दमय...त्र°
 ४-दक्षिन्न- गपू. पृ३०६ द.
 *उच्चिन्न-
 चित्र-सुग-प्राज्ञा(प्र-अ)जिन-
 -जिनम् षड ६, २५.
 चिद् किम्°
 √चिन्तु>न्ति शतु°, परि°, प्रवि°,
 वि°, समु°

चिन्तक- आत्मन्°, २काल°, तत्त्व°,
सृष्टि°

चिन्तन- अनिष्ट°, अनु°, निस्°,
प्राण्°, १ब्रह्मन्°, मद्°, मन्त्रार्थ°,
शास्त्र°, १स्वस्वरूप°, स्वस्वरूपव्य-
...त्व°

चिन्तयन्- अनु°, परि°

चिन्ता- अन्त्य°, आत्मन्°,
भान्तर°, कलत्र°, तत्त्व°, तद्°,
निस्°, बाह्य°, मन्त्र°, सर्व°

चिन्ता-मणि- कल्पवृक्ष°, सा-
प्राज्य°

*चिन्ता-सर्वस्व- जीवात्म...ति°

चिन्तित- सकलजन°

*चिन्त्य वि°, सम्°

चिन्त्य- ४अ°

चिन्त्यत्- चिन्वमान- √चि (*बधा.)
परि. ३.

चिबुक- मध्य°

चिर- ४अ°, अति°, ५न°, सु°

*चिर-काला(ल-अ)भ्यन्त-कृत-
रहस्यकृत°

*चिरा(र-अ)भ्यास- भूमिपट्क°,
पद्भूमिका°

√चिलु> चेल^१- २कु°, केश°

चिह्न- असाधारण°, २चैत्य°, तद्°,
तदभिव्यक्ति°, नाना°, पृथक्°,
स्व°

चिह्नित- ध्वजवन्नादि°, समस्ता...ह°

*चीन- महत्°

√चुद्, > चोदि प्र°

*चोद्- पुत्रदारपुत्र°

चोद(न)ना- ४अ°, कर्मव°

*चोदपत्, चोदयित्, चोदित-,
*चोदित्- प्र°

+ √चुम्भ> चुम्बन- आलिङ्गन°

√चुर> चोर- अनात्मरूप°, कारागा-
...क°, महापकार°, राजन्°,
सप°

+ √चुप> चोष्य- अशित°°,
खाय°°, भक्ष्य°°

चू(ड)> डा- चक्ष°

*चूडा-मणि- गोपाल°, २योग°

√चूर्ण वि°

चूर्ण- १शह°, श्री°

*चूर्ण्य वि°

+ √चृत् नि°, वि°

*चृत्- नि°

*चृष्य वि°

√चूर्(समाती)> चीर्ण-> *चीर्ण-
वत- ४अ°

√चिष्ट अभि°, वि°

*चिष्टन- इत्यादि°, तत्प्रतीकार°

चे(ष्ट)> ष्टा- १अह°, अभि°, ईदृश°

कष्ट°, गमागम°, जड°, पृथक्°,
प्रधान°, प्राणपानादि°, निस्°,
मातृव°, युक्त°, वायु°, संयुक्त°,
सर्व°, हान°

चेष्टित- अशेष°, चराचर°, तद्°,
वि°, विधि°, स्व°

√च्यु, > च्यव- प्र°

*च्युत- ४अ°, आरूढ°, प्र°, वृत्त°

*च्युति- आत्ममल°, आवरण°

छ

*छाट> ष्टा- केश°

√छद्> छादि आ°, उप°, परि°, प्र°,
प्रति°, वि°, संप्र°

छत्र- उपानद्°, एक°, कनक°, धृत्°,
ध्वज°, पार्वण...श°, महत्°, वि-
पुल°, विमान°, २श्वेत°

*छत्र-चामर-ध्वज-यताका-वितान-
न-तो(रणा(ण-आ)दि- दिव्यते-
जोमय°

*छत्र-ध्वज-चामर-वितान-तो-
रण- अनन्तपरम°

*छद्- परि°

छन्न- ४अ°, अर्ध°, वृष्ण°, प्रति°,
भस्मन्°, संप्र°

छादन-, छादित- आ°

*छास आ°, प्र°

१छन्द- स्व°

२छन्द- ऋषि°

१छन्दस्- -न्दः रार २, १३. [°स-

अति°, ऋषि°, एतद्°, २कुर°,
गायत्रीत्रिष्टुभुष्टुभु°, गायत्री-
त्रिष्टुभु°, तत्त्व°]

छन्दो-ग-> छान्दोग्य- केन°

१छाय, या- ४अ°, अन्न°, १चिन्त्°,
त्वद्°, विमुक्तिपादप°, हरितपीत°

*छाया-वासि(न्)नी- अरिष्टकारि-

रणी°

+ √छि आ°

√छिद् अव°, आ°, उद्°, परि°, वि°,
व्यव°, समुद्°

*छित्ति- उद्°

*छिय आ°

छिन्न- ईष्य°, तद्°, मध्य°

*छिदित- ४अ°

छिन्न- ४अ°, अव°, उद्°, ऊर्ध्व°,
तत्कल°, परि°, बाहु°, वि°, व्यव°

छेद्- अव°, उद्°, पर°, परि°, पाश°

विस°, १मूल°, वि°, स्वशिरस्°

छेदन- नख°, निगल°, पर...र°

शिवश...ध°

*छेदिन्- उद्°

*छेदिनी- अरिष्टकारिणी°

*छेद्य- ४अ°, परि°

+ √छुर> छुरित- सहस्रभानुमन्°

√छृद्, > *छृदन- प्र°

√छो वि°

ज

ज- √जद् ३.

जगत्- गत् मं ५, ११. [°व- वृत्त

१चित्°, विद्वित्°, त्रि°, नानाविचित्र°, भविष्यत्°, भित्त°, महस्°, विविधवि...त्°, १वि-
 श्व°, सकल°, सर्व°, रूप°, स्वस्-
 रूप्य...त्°]
 ३जगती- गायत्री°
 *जगच्-चक्षुस्- आदित्य°°, धातु°°
 *जगद्-कार्य- निःशेषित°
 जगत्-शय- धवलीकृत°
 जगत्-स्थावर-जङ्गम- -माः शु ३,
 २१°.
 *जगद्-ईश- > *जगदीश-जीव-
 भेद- प्रणलित°
 जगद्-भाव- जीवभाव°
 जगत्-मोहन-चक्र- भार्या°
 जघन-> *जघन-स्थल-वासि-मो-
 हन-गृह- संराजमान°
 जघ्नियस्- √हन(परि) द.
 जङ्गल- गुद°°, पाद°°, पीन°, मर्म-
 न°, मस्तक°°, शिरस्°°
 *जङ्ग(क)- पाताल°
 जङ्गल-शूल- अङ्गराल°°, शिरः-
 शूल°°
 √जट>जट, टा- उग्र°, उद्°, एक°,
 चन्द्र°, चन्द्र...टित°, चाट°, पि-
 ङ्लो...क°, पिङ्गो...क°, १दर°
 *जटा-कलाप- उद्ग्रथित°
 जटित- आरङ्ग...क°, कनकखचि-
 त°, कुटिल°, मणि°, रत्न°, सुवर्ण°
 सुवर्णभूमि°, स्फूर्ता...र्ण°, हस्ता...
 का°, हाटक°, हाटकमणि°
 *जटिल- पद्मरागम ण°, रत्न°
 जठर- अनन्त°, गुल्फ°
 जड- ४अ°, कर्मन्°, गन्ध°, १चित्°
 जाड्य- ४अ°
 जाड्य-संविन्-मनन- ४अ°
 *जड-भरत- रनिदाप°, २संवर्त-
 क°°

*जघा(ड-आ)मन्- कर्म...ना°
 जतु-> *जतु-समुद्भव- -वम् शि
 ७, ११°.
 √जन्, > जा, जनि अनु°, अभि°,
 भा°, उप°, प्र°, प्रति°, प्रत्या°,
 वि°, सम्°, समुप°
 ज, जा- भस्वेद°, अमिहोत्र°, अम्र°,
 १अङ्ग°, १अज्ञा°, अरुड°, अधो-
 क्ष°, अनिल°, अनु°, अनन्य°,
 अप°, अम्यु°, अम्मन्°, अका-
 श°, आजान°, आत्मन्°, आत्म-
 बुद्धिप्रसाद°, ईर्, उद्भिद्°, उप-
 पातक°, रज्ज्वन्°, एक°,
 ४कम्°, २कर°, कर्मन्°, क्राष्टपाप-
 ण°, रकुल°, रकोसल°, कोष°,
 सौरभृत्°, २ख°, घण्टाकादल°,
 चित्त°, जन्म...माधि°, जरा-
 मरणादि°, जरायु°, जात्यन्तर°,
 जारु°, जीव°, तद्°, तल्प°, ताम्र-
 मृच्छैलदाह°, रताल°, दारु°,
 देद्°, द्रव्य°, द्वि°, घन°, धर्म°,
 १धान°, पक्ष...र्षे°, पङ्क°, १पत्र°,
 पलाशाङ्कुर°, पलाशेन्धन°,
 पित्त°, प्र°, प्रकृति°, प्रथम°,
 प्रधान°, बोध°, १गङ्गन्°, भानु°,
 मणि°, १मतङ्ग°, मनसि°, २मनु°,
 मातापितृ°, मृकरुड°, मृतमृतक°,
 मृद्धारु°, मृद्बलवत्°, यमाया-
 सन°, रौप्य°, ललाट°, १लोह°,
 १वंश°, वक्ष्ण°, वसिष्ठवंश°,
 वात°, नारि°, विरजानस°, विवेक°,
 शिपवृत्त°, वेदान्तवाक्य°, शरीर°,
 १शुद्ध°, शैल°, पप्°, संशोक°,
 संस्पर्श°, संकल्प°, संतान°, १स-
 रलु°, सरति°, सर्पि...क्ष°,
 २सह°, १शुयोग°, स्वभाव°, स्व-
 योग°, खेद°
 *ज-ल्य(ल-अ)न्- -लान् छां३,

१४, १.
 १जन- -नात् मनात् १, ३?५°;
 सता १, १२?५°. [०न- २अ-
 ज्ञान°, अति°, अभि°, उप°,
 गोपी°, तद्°, दुष्ट°, दुष्ट°, १देव°,
 निरु°, परि°, पयन्°, प्र°, महा-
 नन्द°, मुसुक्त्व°, मृत्यु°, महत्°,
 मुनि°, २योगिन°, रक्षोदेव°, वि°,
 विषय°, ६स°, सकल°, १सत्°,
 सर्प°°, सर्व°, सु°, स्त्री°, रव°]
 १जनक- ज्ञान°, पद्यभूत°, प्रतीति°,
 प्रखेद°, विभेद°, वैराग्य°, शा-
 न्ति°
 १जनन- अभिमव°°, ज्ञेय°, पुनरु°,
 प्र°, प्रखेद°, प्रियत्व°, १सत्य°,
 खेद°
 *जनन-मन्दिर्- अनन्तमहामा-
 याजाल°
 रजन(न>)नी- १त्रिपुर°, मूलप्र-
 कृति°, विकार°, समस्तम...ष्टि°
 जनयत्- सम्°
 जनस->जनी-लोक- भूलोक°°
 जनित- ३प°, कर्मवेद°, चिरसमाधि°
 देह°, नानासंसार°, पुरुषव...दि°
 जन्तु- अखिल°, २अज्ञान°, जा-
 त्यन्तर°, जीव°, तत्तद्°, मृत°,
 सर्व°
 जन्मन्- ४अ°, अनन्त°, अनेक°,
 अन्नमन्°, अवस्य°, आ°, एक°,
 कर्मफल°, १कोटि°, जन्मन्°,
 दुःख°, दृष्टारुष्ट°, द्वि°, पुनरु°,
 पूर्व°, प्रथम°, बहु°, मरण°,
 भूयस्°, १मृत्यु°, योनि°, वेदि°,
 पप्°, सद्वद्वयोनि°, सप्तन्°,
 समस्त°, सर्प°, सर्व°
 *जन्म-जन्मा(न्म-अ)भ्यस्ता-
 (स्त-अ)त्यन्तो(न्त-उ)त्कृष्ट-
 सकलवेद...स्य°

a) मम् इति अल्पा. b) ननु इति पा. ? यनि. शोधः द. । c) तु. ग. ३३५२b । d) 'मुखाः' इति पा. ? यनि. शोधः द. (तु. ग. ३३५१q) ।

+जन्म-मृत्यु-जरा(रा-आ)दि-
तापत्रयसमुद्भूत°
जन्मान्म-अन्तर- जन्मन्°,
वहु°
जन्य- ४अ°, १अज्ञान°, दाहन°,
दुष्टकारण°, १विध°
जा-अदि°, अप°, १श्रुत°, गो°, प्रथम°
जात- -तः मउ २, ४५°। [°त-
४अ°, अय°, अभि°, १श्रुत°,
गणवंश°, तत्त्व°, इत्य°, १देव°,
द्वन्द्व°, १नित्य°, प्र°, यथा°, रेफ°,
२शाक°, शिरस्°, श्रम°, संकल्प°,
सदा°, सयस्°, समु°, यु°]
१जाति- ४अ°, दि°, पूर्व°, प्र°,
१भद्र°
२जाति- अनेक°, अष्टन्°, एक°।
२कुल°, जीव°, तद्°, देह°, जा-
मन्°, १बीज°, भूत°, वि°, ५स°
+जातुम् प्र°
+१जान- भा°
जायमान- ४अ°, भा°, उप°, प्र°,
युगपत्(दि°), वि°
जा(य>)या- अनिन°, अनल°, आ-
चार्य°, नव°, शुद्धकारु°, २मातृ°
वाह°
+जावर- भानु°
+जावरी- २शिमि°
जन्घन- उप°
√जपु>जापि अनु°, परि°, प्र°, समु°
जप- वे स् १°। [°प- ४अ°,
अनुतघेदि°, एकवार°, १कोटि°,
गायत्री°, सद्°, तापस्°, दादश-
लक्ष°, मयलक्ष°, निरखान°, पया-
घर°, पथायवेशीर्ष°, शुद्धवा...
पद्°, मन्त्र°, महापात्र्य°, यद्°,
लक्ष°, गोश्रासहस्र°, सकलमन्त्र°,
घ्रान°, ह्यप्रविकाचर°]

+जपा(प-अ)न्त- न्ते वउ ६,
१५°।
जपत्- सम्°
जस- प्रणव...टि°, शिवैकादशिका°
जप्टवा प्र°
+जप्य परि°
+जापक- तद्°, मन्त्रराज°, २रुद्र°
चापिन्- अग्नि°, अनु°, कालिका-
मनु°, तद्°, १मनु°, मन्त्र°,
महार...स°, १शिव°, सकल-
रुद्रमन्त्र°, सर्वमन्त्र°
जाप्य- समाधान°
जपा- नव°
जवाल->जाबाल- ईशानास्°,
२प्रभ°, १श्रुत°, १द्वन्द्व°,
रुद्रास्°
+जावाल-दर्शन- केन°°
जाबालि- कलि°, केन°, २वसिष्ठ°°
जमद्-अग्नि- २वसिष्ठ°, विद्यामित्र°
जम्बीर- कदम्ब°
+जम्बुका- दुष्टकीट°°
२ज(म्बु)>म्बू->+जम्बू-वृक्ष-
भाष°°
१-७जय-, १-२जयिन्- √जि
(परि.) द.
जरायु- युगा व ६, ४, २३५°।
जरायु-अ- अरुज°, ऊर्मज°°
जर्जर-जर्ज- √ज (परि.) द.
२जल- अगाध°, अतिशीत°, अमृत°,
उच्छिद्र°, कारण°, कालिन्दी°,
२स°, तद्°, तृण°, त्रिदण्ड°,
नमस्°, नाडी°, २शुण्य°, पुण्या-
राम°, मापमम°, मृगमृष्या°,
मृद्°, मृद्°, यमुना°, वृत्त°,
व्योमन्°, २शास्त्र°, शीत°,
शीतल°, शुद्ध°, ६म°, २सित°
३°, २सुगन्ध°, सुगन्धशाति°

स्थल°, खेद°°
+जल-केलि- ताना°
जल-क्रीडा- कृष्णगोपी°, रासमान°
+जलक्रीडा(डा-उ)पकरण- अ-
नेक°
+जल-द- अभिनव°, उत्कट°
जल-धि- संसार°
+जल-निधि- उद्यत्...ल°
जल-यन्त्र- सन्द्रकान्तमणि°
+जल-रय- मेरुशृ...हा°
+जल-राशि- क्षीरघृतेजु°
+जला(ल-अ)भ्युक्षण- जलशुद्धि-
...न°
+जलौ(ल-ओ)घ- महत्°
+जलायुका- तृण°
√जल्प>जल्प- वृथा°
जल्पे(ल्प-ई)धर...
+जस्र- ४अ°
√जागु>जागर- अति°, स्वप्न°
जागरित- निद्रा°, स्वप्न°
+जागति- घट्चक°
२जाग्रद्- १बीज°, महत्°, स्वप्न°
+जाग्रत्-स्वप्न-निद्रा- ४अ°
+जाग्रद्-वासना- विस्मृत°
जाती- भाष°°
+जाशय- मणि°°
जाती-फल- एला°
२जान- √ज्ञा द.
जानि- -नो जाद ३. ६, २। [°उ-
गुद°, शूल°, नाभि°, पाद°,
मस्तक°, रिफन्धम्ब°
+जानु(क)- दक्ष°
+जानु-कटि- भा°
+जानु-पथन्त- पादादि°
+जानु-पाद- आ°
+जानु-मण्डल- अवनिहृ(ईशु)त°
+जानु-शूल- अश्रुशूल°, शिर-
शूल°

भ) मा ८, २६। b) तु. वैप१, १९८। c) व्यु. १। d) अश्रुः सा. अया.। e) मय. (पृ ११५)
गुह्य 'जर्-> -वा' हयन यनि. कोषः द. १। १) यथा. द.। २) व्यसं., तदात्मोपनिषद्विशेष-। g) 'दुर्धमाहयः'
दिशि ५, ५८, ७ (तु. डि. वैप१ मया.)। h) =घेप्रविशेष-। i) वैप१ यद.। j) अश्रुः यो. अया.।

जान्ब(नु-श्च, फ्त- नाभ्यादि), पादा-दि°

जापक-√जप् द्र.

जाम्बूनद- तात्, उरण°

जाम्बूनद-सुवर्ण- नानामणि...त°

१ जाल- अखिल...ख°, अनन्तचिरसा-...ल°, अनन्तचिन्मयप्रासाद°, अनन्तशु...न°, अनन्ता...न°, अनन्तोप...म°, आकल्प°, आनन्दम...न°, आश्वि°, इच्छा°, इन्द्र°, इन्द्रियतन्मात्र°, इकल्पना° कार्यकारण°, किञ्चिणी°, जिन्या°, खग°, गुण°, चतुर्, जगत°, जल-...लिका°, ज्योत्स्ना°, ज्वाला°, तन्मात्रा°, रतार°, रतारका°, दिव्यतेजोज्वाला°, दोष°, सुःख°, द्रन्द्र°, नाडि°, निरतिशयान...र° पाश°, प्रह्लापरठ°, मल°, महान-रक°, महामाया°, महेन्द्र°, माया°, मोह°, मोहयुग°, रोग°, लोभ°, रवासना°, विक्षय°, विया°, शब्द°, शाल°, शोषायुतकफा°, संसारवासना°, संकल्प°, सिद्धि°, स्वप्रकाशा...ला°, १ हेतु°

१ जाल-(क)- क्रीडासक°

२ जाल-क-°

* जालः(ल-आ)वलि- अनन्तानन्द-विमान°

जावर-, °री- √ज्व (परि.) द्र.

√जि, > जिगीव अप°; अपपरा°, अभि°, निर्°, परा°, वि°, सम°

१ जय- गप्, पृ३२४ द्र.

२ जय- ४अ°, भातमलोक°, भादि-त्य° इन्द्रिय°, उदान°, चित्त°, तद्°, दुर्, परा°, पुण्यपाप°, पुषिणी°, प्रधान°, प्राण°, प्राण-

स्वन्द°, भूत°, मनोमात्र°, १ मर-त्°, १ मृत्यु°, धारु°, वि°, दस°, सम°, १ समान°, समितिम्°
* जय-राम-...म रार २, ५६.

१ जयि(र्>)जी°

३-५ जय- गप्, पृ३२५ द्र.

+ १ जय° ३ जयन्त°

+ ७ जय° धनम्°, समितिम्°

+ २ जयिन्- वि°, १ विश्व°

+ जायिन्- अन्यतस्य°

जिगी(प>)पा- मै ३, ५. [°पा-भोगभोज°, स्वर्गभोज°]

+ जित्- कर्त्तृन्, रक्षाल°, पुर°, लोक°, धृत्तना°, नायु°, १ विश्व°, रायु°, सर्व°, सहस्रात्°

१ जित- ४अ°, अपपरा°, वि°, संभावित°.

२ जित(ं>)ता°- विराजा°

जिति- अभि°, वि°

+ जिय निर्°, वि°

जित्वा, + जेय- ४अ°

+ जेय- वि°

जिघत्स- √घत् (परि.) द्र.

जिघांसु- √हत् (परि.) द्र.

जिघृक्षमाण- √* गृह्, गृह् (परि.) द्र.

जिज्ञास्य- √ज्ञा (परि.) द्र.

√जिन्घ् > + जिन्व- धियम्°

१ जिहान- √हा (गती) परि. द्र.

२ जिहान- √हा (त्यागे) परि. द्र.

जिह- ४अ°

जिह्वा- ४अ°, ऊर्ध्व°, गति°

२ त्वक्°, पाद°, प्रथिणी°

२ मङ्ग°, १ भारती°, २ योग°, १ वायु°, विद्युज्ज्वाला°, रायु°, धोत्र°, हस्तिन्°

+ जिह्वा-(क)- १ यम°

* जिह्वा-पाणि-पाद-शब्द-स्पर्श-रूप-रस-गन्ध-चक्षुस- बहु°

* जिह्वा-मुख- -खानि लां २१६:१३

* जिह्वा-शूल- शिरःशूल°

* जीमूत- जलधि°, १ नील°

जीरक- १ कृष्ण°

√जीव्, > वि, जीवेत् पठं १५०:१९!

[आ°, उद्, उप°, परि°, प्र°, सम°]

जीव- अनेक°, आ°, ईरवर°, उप-हित°, एक°, १ क्रेवल°, जगत°, जगदीश°, चित्त°, ततद्, तद-न्तर्गत°, निर्°, पर°, पारमार्थिक°, प्राणित्, बहु°, शरीरत्रयसंयुक्त°, दस°, १ सत्य°, सर्व°, २ सह°

* जीव-परमहमन्- उन्मीलि-त्...स्थ°

जीव-लोक- कल्पित°

१ जीवा(व-आ)त्मन्- परमारमन्°

जीवत्- ४अ°, उप°

* जीवद्- भवस्थ- वा°

जीवन्-सुक- जनक...देव°, शुक्रदेववामदेवादि°

जीवन- अशुद्ध°, जगत°, प्र°, प्राण-स्थानम्, सम°

* जीवम् यावत्°

* जीवय- उद्°

जी(वक>)विर्क- चिर°

जीवित- २ जय°, स्वर्क°, पूतना°, सायु°

जीविन्- उप°, चिरम्°

√जु>जव-आश्रयम्°, १ मन्त्, सर्व°

जुय- √वृ (परि.) द्र.

√जुप् अभि°, सम°

* जुप- त्रिरल्लक्षतमदिप°

* जुपन्त- न्तः पा २, ५.

जुपमाण- सम°

४) गप्, (पृ३२४) यनि. संख्यानदिशा: द्र. । b) तु. गप्, पृ३२५h । c) कर्तारि कृत् । d) 'अन्यतस्य ज्यायान्' इति निशा:° लैवि. इति कृत्वा यनि. शोध: द्र. [तु. गप्, पृ३६६h (एतदनु गप्, पृ३२५) शोध: सुपरिहर:)] । e) 'जिहीर्षी' इति सात्. । f) गप्, (पृ३२५) यनि. संख्यानदिशा: द्र. । g) =नाडीविशेष- । h) वैपरी यद. । i) निशा.अप्रा. । j) क>भक्त: प्र.उसं. [पाउ ३, १३° (वैत.पाटी. अजुपन्तः) एतदनु गप्, (पृ१८) 'अजुपन्त->पन्तः' इत्ययं शोध: द्र.] ।

जुपाण- अभि°
 जुष्ट- अनार्थ°, ऋषिसद्व°, १सुगन्ध°
 *जोपस- ६स°
 *जुहवा- √हु(दाना[१दा]नयोः) द्र°
 *जूट°- जटा°
 √जूम्भु> मिम उद्°, वि°, प्रवि°
 *जूम्भण- अन्तःकरण°, उद्°, १मारण°, वि°
 *जूम्भयत्- वि°
 जूमिभ(नू>)णी- सर्व°
 *जूमिभत- वि°
 √जू उद्°, परि°
 जर,रा- ४अ°, अशानाया°, १अ-
 हूर°, १काम°, २कालम्°,
 गर्भ°, जन्मन°, डुर°, निर्°, १मृत्तु°, वि°
 जरव- ४अ°
 *जर्जर- परि°
 *जर्ज- ४अ°
 जीर्ण- ४अ°, विवर्ण°, सु°
 जीर्णत्- *जुर्ज- ४अ°
 जेनातिस- स्वयम्°
 जेप- √जि(परि.) द्र°
 √ज्ञप् प्र° वि°
 *ज्ञप्त्व- वि°
 ज्ञप्ति- प्र°
 √ज्ञा> ज्ञा, ज्ञायि, जिज्ञास, जनाति
 कुं २३ः २० [अनु°, अभि°,
 अभिप्र°, अभ्यतु°, अव°, आ°,
 निर्°, परि°, प्र°, प्रति°, प्रत्यभि°,
 वि°, विनिर्°, सम्°, सना°, संप्र°
 २जान- वि°
 जानन्- ४अ°, प्र°, वि°
 जिज्ञा(स>)सा- धर्म°, १ब्रह्मन्°,
 वि°
 जिज्ञासितव्य- वि°
 जिज्ञासु- तत्त्व°
 *जिज्ञास्य- वि°
 ज्ञ- ४अ°, अज्ञ°ण°, अतिसंधि°

अभि°, अर्थ°, आत्मन्°, आ-
 शय°, चिहित°, क्षेत्र°, स्वाय°
 द°, गीत°, गीतरसभेद°, शुष्ण°,
 चतुर्वेद°, स्वातुर्या°ण°, तत्त्व°,
 तत्त्वयोग°, तत्स्वरूप°, तद्°,
 तद्गतविरोप°, तन्तू°द°, धर्म°,
 नानासुग°द°, १निर्विकल्प-
 स्वरूप°, पदार्थ°ण°, परम-
 तत्त्व°, परःश°णी°, १पुराण°,
 १पुरुष°, प्र°, बहुर°, ब्रह्मज°,
 १ब्रह्मन्°, भूषण°, १भोग°, मद्°,
 १मनस्°, मन्त्र°, मार्ग°, २योग°,
 लताइक्षु°, लोक°, १रति°, १रम-
 यानन्द°, रसभाव°, रसमु°ण°,
 २राग°, १रूप°, वनस्थान°,
 वस्त्रमु°द°, विधि°, वेदान्त°,
 व्यक्ताव्यक्त°, शाल्मगीत°, शिव-
 ज्ञा°त्व°, पराणवतितत्त्व°,
 सकलवि°म°, सकलवे°थ°,
 संकेत°, संकेतरस°, संकेतस्थान°,
 संगीत°, सम्°, संप्रतिमुख°, संभा-
 वितरस°, सर्वे°, सर्वधर्म°, सर्ववि-
 द्यारहस्य°, सर्वशास्त्र°, १सुगन्ध°,
 सुगन्धप्रत्यभेद°, सुरतकैलि°,
 सुरतागम°, १स्वरूप°, स्वर्ण°,
 १स्वस्वरूप°, हृदय°
 *ज्ञा- अनु°, अव°, आ°, प्र°, प्रति°,
 प्रत्यभि°, सम्°, सना°
 ज्ञात- ४अ°, अनु°, अभि°, अभ्य-
 नु°, अव°, आ°, निर्°, परि°, प्र°,
 प्रति°, यथा°, वि°, संप्र°, सु°
 ज्ञानवत्- अनु°, वि°
 ज्ञातव्य- प्र°, वि°
 ज्ञाति- ज्ञातुस्- वि°
 ज्ञातृ- अनु°, आविर्भा°ण°, परि°,
 प्र°, वि°, सर्वे°
 ज्ञातृ-ज्ञान-ज्ञेय- कर्तृकर्मकार्य°
 ज्ञात्वा ४अ°, परि°
 १ज्ञान- नम् भव १, ३२°, -ने

पहं ४०. [°न- ४अ°, अराण्ड°,
 अभिलोक°, १अज्ञ°, अण्ड°प्र°
 असललोक°, अतीतानागत°, अ-
 तीन्द्रिय°, अद्वैत°, अध्यात्म°,
 अनित्य°, अपरान्त°, अपरोक्ष°,
 अपहृत°, अव°, अविच्छिन्न°,
 अविद्याप्रपञ्च°, आ°, आत्मन्°,
 आयुस्°, इच्छा°, इत्यादि°व°
 इन्द्रलोक°, उत्पत्ति°ति°, एक-
 त्व°, कर्मन्°, कर्मन्°, कायव्यूह°,
 २काल°, क्रिया°, खण्ड°, गन्ध-
 रसादि°, गोपीजनवल्लभ°, जने-
 लोक°, ज्ञातृ°, तत्त्व°, तत्स्वरूप°,
 तद्°, तद्गति°, तपोलोक°, तला-
 तललोक°, ताराव्यूह°, तितित्वा°,
 १त्रिकाल°, त्वष्टृ°, दिव्य°, १देव°
 १देहात्मन्°, २देहात्मन्°, धन°,
 धर्म°, ध्यान°, नष्ट°, नामन्°,
 नितललोक°, निरञ्जन°, निरन्तर-
 ...ट°, निर्ऋतिलोक°, निश्चय°,
 निश्चल°, निष्केवल°, परिव्रत°,
 परम°, परि°, परोक्ष°, पाद°, १पु-
 रुष°, पुरयार्थ°, पूर्वजाति°, पूर्वो-
 क्त°, पृथिव्यप्ते°त्त°, प्र°, प्रति°,
 प्रतिवद्ध°, प्रत्यच्°, प्रपञ्च°, प्रत्य-
 भि°, प्रपञ्चवागाहित°, बुद्धि°,
 १ब्रह्मन्°, ब्रह्मलोक°, ब्रह्मशरीर°,
 २भक्ति°, भगवत्°, २भुवन°, सुव-
 लोकि°, भूतमवि°ल°, मूलोकि°,
 १मधु°, महत्°, महलोकि°,
 महातललोक°, माया°, मिथ्या°,
 मोक्षप्रपञ्च°, १मोष°, यत्स्वरूप°,
 यथावस्थित°, यद्°, यमलोकि°,
 यागत्र°ण°, २योग°, रसातललो-
 कि°, रास°, १रूप°, वरणलोकि°,
 वायुलोकि°, वि°, वितललोकि°,
 विवेक°, विपय°, वृत्ति°, वेदान्त°,
 शब्द°, शब्दाव°ण°, शब्दार्थ°,
 शास्त्र°, १शिव°, शिवतत्त्व°,
 शास्त्र°, १शिव°, शिवतत्त्व°,
 शास्त्र°, १शिव°, शिवतत्त्व°

a) व्यु.। b) अग्न्याः सं. अया.। c) गण. (१३३१) यनि. संख्यानिर्देशः द्र.। d) तु.टि. 'तत्प्राप्तिहेतु-> -तु'।

शिवलोक°, शुद्ध°, षोडशान्त-
स्थित°, संशय...व्या°, संसार°,
सकलविषय°, सकृत्°, १सत्य°,
सत्यलोक°, सद्योजातशिशु°, सम्°
सम्पृच्°, सर्वे°, सर्वजनतुरत°, सर्व-
परिपूर्ण°, सर्वभूतरत°, सर्वलोक°,
सर्वविद्या°, सु°, सुतललोक°,
सूक्ष्म...ष्ट°, सोमलोक°, स्वप्न-
निद्रा°, १स्वरूप°, स्वलोक°, स्वा-
त्मन्°, स्वाध्याय°, हृत°]

+ज्ञान-करण- संवेलक्षण°
१ज्ञान-चक्षुस्- ४अ°
ज्ञान-मय- मनोमय°
ज्ञान-विज्ञान- १मन्त्र°
१ज्ञान(न-आ)नन्द->+ज्ञा-
नानन्द-रूप- १नित्य°
ज्ञानिन्- नी पहं ४°. [°न्-
४अ°, तन्मुद्रारूढ°]
ज्ञाने(न-इ)न्द्रिय- अग्निकार्य°,
पद्यन्°, प्रोत्रादि°

+ज्ञानो(न-उ)पवीत- कर्मशिखा°
+ज्ञान(न>)ना- निमला°°
+ज्ञापक- परापरतव°
+ज्ञापया- आ°
+ज्ञापयितुम् प्र°
+ज्ञाप्य वि°
+ज्ञाप्य- अतु°
ज्ञाय परि°, वि°
ज्ञेय- ४अ°, तावु°°, १ज्ञान°, हुद्°,
परि°, १मन्त्र°, महत्°, वि°, सु°,
हेय°

+ज्ञेया(य आ)दि- आत्मन्°
ज्ञातानुज्ञात्रनुज्ञाट्टिककल्पज्ञान-
साधन- नम् नाप ८, १७!°

√ज्या>ज्यानि- सर्वे°
ज्या- ४अ°, अधि°, उद्°, क्रोध°,
प्रव्रज्या°, वि°
१ज्येष्ठ- ४अ°, सर्वे°

ज्योतिस्- -ति: नाप १५१:८°; नीपि
मउ ९, ४९°. [°श्- अक्षरङ्...
र°, अधूम°, अनिर्वचनीय°,
अन्तर्°, अपरिच्छिन्नानन्त°,
अर्क°, अहंशेषांश°, आत्मन्°,
आदित्य°, आवरण°, क्रिम्°,
कैवल्य°, २मह°°, १चिन्°, चि-
न्मात्र°, २चैतन्य°, १जल°, जेना-
तिस्°, ज्वलत्°, पर°, पूर्ण°,
प्रत्यच्°, पिन्दु°, तिल°, त्रि°,
द्वादशाहिलमान°, नादान्तर्°,
१गील°, १मन्त्र°, भरमन्°,
मूर्धन्°, व्योमन्°, तक्रु°, साचिदा-
नन्दघन°, सर्व°, सुवर्ण°, स्वयम्°,
: रघारमन्°, हंस°, हिरण्य°]
+ज्योतिष्- व्याकरण°

ज्योतिर-मयूर- ततका...श°
+ज्योतिष्-शास्त्र- २ग्रह°°
ज्योतिष- अधि°, आगम°°,
स्वस्ति°
ज्योति-स्थान- विन्दुपूर्ण°
ज्यो(ल्ल>)रुना- अनेकम...र°,
: अन्तर°, कर्णकुरडल°, कुटिल-
जटित°, खचित°, चन्द्र°, तिलक-
हा...शि°, नाजा°, नासाम...
शि°, परस्पर°, भुजल...त°,
मशि°, हाटकजटितमणि°, हाड-
कमशि°, हीरका...ल°

+ज्योत्स्ना-जाल- शरायुद्धिम्ब°
√ज्वर अनुसं°
ज्वर- अर्धमासिक°, अस्थ्यन्तर्गत°,
उष्ण°, एकादिक°, १गुण्म°°,
चातुर्थिक°, त्रैदिक°, द्वयादिक°,
पित°, १मन्त्र°, भयंकर°, मासि-
क°, माहेरवर°, वि°, विगत°,
१विय°, वियम°, विष्णु°, वेताल-
त्रमप्राज्ञस°, शीत°, रलेष्मसाभि-
पातिक°, घारमासिक°, संतत°,

सर्वे°, सांवत्सारिक°
√ज्वल, >ज्वाल अति°, अग्निवि°,
उद्°, प्र°, प्रा°, सम्°, समुद्°
ज्वल- उद्°, ऊर्ध्व°, दैत्य°, प्र°,
समुद्°
ज्वलत्- ४अ°, अति°, अग्निवि°,
अयुतार°, उद्°, प्र°, वि°
+ज्वलन्-ज्योतिष्- अन्तर्लक्ष्य°
सहस्रार°

+ज्वलद्-अर- उत्कट°
१ज्वलन->+ज्वलन-कुण्ड- ज्व-
लत्°
२ज्वलन- अग्नि°, अग्र°, ऊर्ध्व°,
प्र°, वहिरन्तर्°, व्योमन्°
ज्वलित- उद्°, प्र°, रत्नकण्ठ-
पण°, समुद्°

ज्वा(ल>)ला- अग्नि°, उज्ज्वल°,
तेजस्°, दिव्यतेजस्°, दीप°, दुष्ट-
ग्रह°, महत्°, रश्मि°, विद्युत्°,
१विय°
ज्वाला(ला-अ)ग्नि- प्रलय°
+ज्वाला-जाल- अनन्त°, दिव्य-
तेजोमय°

+ज्वालिन- १स्वाश्रय°
+ज्वालय प्र°, सम्°
ज्वलं टुपू १, १.

ट

ट- >ट-तृतीयक- -रु: दे १३३.

ठ

१ठ- द्वि°

ड

+डमरु- अस्त्र°, विश्रल°

n) अज्या: सं. अया. । b) निसा.१ भोतानुज्ञात्रनुज्ञानावि इति शोध: द. (तु. अज्या.) । c) मा ८, ३६ ।
d) कर्तारि भावे वा कृत । e) तु. गप. ५३३८j । f) =वर्णविशेष- । g) =ड-कार- । h) *कम् इति अज्या. । i) व्यु. १ ।

डाक->डाकि(न्)>जी- अरिष्टघा-
रिणी^{००}, भूत^{००}
+√डी,>+दि-,+दीय तद्^०
डोरि- २५८

त

तक्र- २दधि^{००}
√तक्ष निम्^०
तक्ष->तक्ष-क- अनन्त^{००}, दैत्य^{००}
√तक्ष->तक्ष- आ^०
√तद्(वधा.)>तट- उमय^०, नदी^०,
२भनानी^०, भूपर^{००}, मेरुशूत्र^०
+तट-स्थ- ४अ^०, १निरय^{००}
तटित^०- सावग्यवाहिनीकल्लोल^०
√तद्(वधा.)>ताडि>तडित्->
तडित्-पर्वत- अनन्त^०
ताडन- उत्सव^०, वस्मीक^०
+तडाग- नदी^०
तण्डुल- शालि^०, १४^०, रयामाक^०
ततान- तति- √तन् (परि.) द.
तरय- अंश^०, अज्ञात^०, अद्वितीयमन्त्र^०
अन्तर्^०, आत्मन्^०, आर्^०, एक^०,
ओकार...ब्द^०, कलापार^०, गण-
नाय^०, चतुर्विंशति^०, १चित्^०,
ज्ञानविज्ञान^०, देवी^०, द्वात्रिंशत्^०,
नवन्^०, निरखधितिःसीम^०, पयन्^०,
पद्यमन्त्रात्मन्^०, पयविंशति^०, पर^०,
परम^०, परमात्मन्^०, परमार्थ^०, परा-
पर^०, १ब्रह्मन्^०, मद्त्व^०, १योग^०,
२योग^०, रज्जु^०, वस्तु^०, विज्ञात^०,
विशेष^०, वेदान्तार्थ^०, १शिव^०,
शिवज्ञानार्थ^०, पद्त्रिंशत्^०, १य-
रणवति^०, ६स^०, संविद्^०, सप्तविं-
शति^०, संभावित्^०, सर्व^०, हेरम्ब^०
तरव-जात- पूर्वोक्त^०
+तरव-ञ- २वेद^०
+तरव-भेद- साख्यादि^०

+तरव-मय- आनन्दमय^०
+तरव-योग-ञ- निःगन्त^०
तरव-विद्- भगन्^०
+तरव-भेदन- १निःसङ्कल्प^{००}
+तरवा(रव-प्र)र्थ- २यद^०
+तरवार्य-मत्- ४अ^०
तद्-
२त->तथा- जाद ३, १, १.
[०धा- यथा^०, वि^०]
तद्- अथगतविगतैक^०, गुण^०, तद्^०
तत्-उद्- , +तत्-सुति- ४अ^०
तत्-कार्य १भगान^०, अविद्या^०,
माया^०
तत्-कम- चण^०
+तत्-तत्-छात्रित- विदित^०
+तत्-तद्-वर्ण- श्रुति^०
+तत्-गल्-लीलो(ता-उ)पवो-
गि-लीला-प्राप्ति- -सिः सार
२४९ : १६.
+तत्-सर्व-पद- भूय^{००}...न^०
+तत्-पत्र-कुसुम-कन्द-मूल-
फल- यावत्^०
+तत्-पत्र-संगयान- यावत्^०
तत्-पद- अज्ञात^०, भवदृग्ध^०
२तत्-पर- जप^०, जपतर्पण^०,
१ज्ञान^०, ज्ञानविज्ञान^०, धर्म^०, ध्यान^०
परिज्ञानैक^०, पवनम्भारा^०, पुद्गा-
...चण^०, पुरोधत्तम^०, रामाराध-
न^०, रामालोकन^०, रदाराधन^०,
वीणावादन^०, २सन्धिदानन्द^०, स-
माराधन^०, स्नानपूर्...ण^०, स्वरु-
पानन्द^०
+तत्-परंपरा- तेजःप्रवाहतरण^०
तत्-सुरूप- अघोर^०
तत्-प्राप्ति-हेतु- -तु भव १,
३२.
१तत्-संयोग->+तत्संयो-
गिन्- ब्रह्महत्यासुरा...न^०

+२तत्-संयोग- ब्रह्महत्यासुरा-
...न^०
तत्-रपान- अधि^०
+तद्-अजमता- तरय^०
तद्-भ-भिन्न- तद्विलक्षण^०
तद्-भाकारा(र-धा)कार->
+तदाद्या राकारित->+तदाका-
राकारित-पर-ब्रह्मन्- रयान्तर्वि-
...प्यान^०
तद्-भागम्->+तादात्म्य-
निरुपधि^०, रारीत्रय^०.
+तद्-भाविभाव- तदत्ररागो-
द्भूत^०
+तद्-गत-शोक- मद्भाण्ड^०
तद्-धर्म- ४अ^०
तद्मार्(मं-अ)भिलाप- ४अ^०
+तद्-ध(<ह)स्त- धामोरन्य-
स्त^०
१तद्-भाव- ४अ^०, तत्तेवा^०,
सामान्य^०
+तद्भाषा(व-आ)पति-
संस्थापक^{००}
तद्-भोग- -गः सार २५९ : १७.
१तद्-रूप- , तद्-पचन- ४अ^०
तद्-वाक्य- -कयम् गोर ३.
तद्-वृत्ति- सुद्धि^०
+तद्-व्यावृत्ति- ४अ^०
तद्-नाल- -रुम् रजा २, १९.
तद्-मण्डल- अधि^०
तद्-मय->तन्मय-सा- जगत्^०
२तद्-मात्र- इन्द्रिय^०, गन्ध^०,
२चिति^०, जैव^०, पञ्च^०, प्राण^०,
भूत^०, रस^०, १रूप^०, सूक्ष्म^०
+तद्-मात्रा- अक्षर^०, पञ्च^०
+तन्मात्रा-जाल- स्वयं-
कल्पित^०
ता->ता-दश- स्फुरत्^०
ता-वत्- द्विस्^०

a) व्यु. ? । b) धा. अर्थः? =तडित्- । c) अख्या : यो. अया. । d) गपू. (३३ ४४) ० सुज्ञान-> -नम् इत्यत्र यनि.
च '१ज्ञान-> -नम्' इति च बोधः द. । e) तस [गपू. (३३ ४५) यनि. संख्यानिर्देशः.] । f) वसः । g) ० वाचम् इति आन. ।

वायव्-काल- -लम् योच्

११.

वायव्-वर्ष-सहस्र- -स्त्राणि

शि ६, ८६; १९८; २०१; २५८; २७५.

√तन् अनुसं, अभिप्रं, भवं, भां, उंद्, प्रं, प्रविं, विं, सम्

२तयं- अनुसं, आं, प्रं, प्रविं, विं, सं, सम्

†तदान- आं

†तति- सम्

†तस्य भवं, विं

१तनु- आकाशकोशं, प्रसुप्तं

†तानव- रामेहैवादिं, श्वा-सनां

†तन्-√क(करणे) > तन्-करण-ज्ञेशं

†तन्व(तु-अ)नुवन्ध- -न्धः

योस् २, ९५

तन्तु- कापोसं, चिन्तां, तावं, दीर्घनिःस्वनं, नातरथं, पूतं, प्रजां, बहिस्, भूतसुखावलीं, ष्टणालं, विसं, रणं, ६वरं, वलं, श्वासनां, विं, प्रखणवति-तावं

†तन्तु-कुर्य- चतुर्विंशति...नं

तन्वत्, तन्वानं- विं

तान- उद्, एकं, पथिमं, प्रं, लक्ष्यकं, विं, सम्

तनय- कैकेयीं, क्षीरसमुद्रराजं, २रो-द्विणीं, शिवोमां, २शुमित्रां

२तनुन्- ४अं, अतप्तं, आं, जी-बन्धुक्तं, तप्तं, नमं, मासयां-द्वितं, २सौम्यं, स्वयंहरिवरं

१तन्त्र-

२तन्त्र- भागमं, २कालिकां, दुष्ट-ग्रहं, दुष्टग्रहं, परं, मन्त्रं, मन्त्रं, महत्, मायालक्ष्मीं,

यन्त्रं, पष्टिं, ६सं, सर्वं, स्त-ग्मिनीमो...शीं, स्वं

त(न्त्र) > न्द्रा- ४अं, १अस्तं

†तन्द्गत- ४अं

√तप्(वपा.) > तापि अभिं, आं, उद्, उपं, निं, परिं, प्रं, विं, सम्

†तप- आं, परम्

तपव- तपं, प्रं, विं, सम्

१तपन- गोपालं, ३त्रिपुरां, १रामं

२तपन- माताएडादिं

तपस- ४अं, अत्युप्रतीकं, आत्म-वियां, जन्मन्, १ज्ञानं, तीर्थं, दीर्घं, महत्, यत्, यत्, यामं, वियां, २वेदं, व्रतं, शौचं, स्वाध्यायं

तपस-विन्- पूज्यं

तपो-लोकं- भूलोकं

१तापस- ४अं, ५नं

तप्त- ४अं, अभिं, प्रं, सम्

ताप- तपं, परिं, परिणामं, प्रं, बहिस्, शुद्धं, संसारदुःखार्कं, सम्

ताप-त्रय- गर्भं

†तापक- ताप्यं

†१तापन, नीं- बृहज्जावालं

†तापनीय- गणेशं

†२तापनं- प्रं, सम्

तापित- संसारदुःखार्कतापं

√तम् > तमस- ४अं, १अज्ञानं, १अन्धं, अमिता...न्तं, अविद्यां, १कामं, गाढं, धर्मं, पीठं, महत्, २जस्, २जस्, शीतं, स्रत्, सत्पं, सम्, स्वकं

†तमस(क)- ४अं, अपहृतं

†तमा(मस्-आ)विष्ट- ४अं

तमिन्न- > तामिन्न- १अन्धं, गाढं

†तमो-मय- > तमोमया(य-अ)-

भिमान- सकलाविलीनं

†तमो-विकार- मृदितं

तामस- १कृष्णं, सत्त्वं, सारिवकं

†तमालक- - कदम्बं

†तय- युष्मद्- द्र.

१तर-

२तर- √तृ (परि.) द्र.

तरङ्ग- अन्तरङ्गं, कक्षोलं, १चिदानन्दं, तेजःप्रवाहं, निस्, परमते-...२, पीतरङ्गं, फेनं, हिरादिं

†तरङ्ग-फेन-धुदुवुद-करकलवण-पापागा(ण-आ)दि- स्थूल-सूक्ष्मं

तरङ्गि(न्)णी- अमितविज्ञानं, आनन्दं, १चिदानन्दं, परमानन्दं, बोधं, ब्रह्मविद्यां, ब्रह्मानन्दं...धिं, स्वात्मा...व

तरण- √तृ (परि.) द्र.

तर- अविद्यां, ४कल्पं, १कल्पकं; पादं, बुस्, मृदं

√तर्क(वपा.) तिं

तर्क- २जुं, १मारणं, मिथ्यां, विं

†तर्क-दण्डान्त-कुहके(क-र)न्-जाल- वृथां

†तर्क्य- ४अं

√तर्ज > तर्ज(न्) > नीं- अहुष्टं, सधनुशयलकं

तर्दन- √वृद् (परि.) द्र.

तर्पित्यत्वात्, तर्प्यं √तृप (परि.) द्र.

√तल् > तल- ४अं, अहुष्टं, २करं, चृत्तिं, २जगतीं, निरात्म्यं, पाणिं, प्रादं, वृन्दाव...हं, १भं, महत्, महीं, वलुषां, वामपाणिं, सुरदुमं

†तल-स्पर्श-रहित- अगाधं

तला(ल-अ)-तल- अतलं

तल्प- युक्तं

†तल्प-र(ग)गा- बहिं

a) तु. गप. ५३५१d, ४०२a। b) गप. (५३५४, ३५५) यनि. संख्यानिर्देशः द्र.। c) कर्तरी कृद् d) = १तपन-। e) व्यु. ? = वृत्तविशेष-। f) गप. (५३५८) यनि. संख्यानिर्देशः द्र.।

*तवर- गुप्पद्- द.
 तस्कर- विभूषण°
 तस्थि- √स्था (परि.) द.
 तादात्म्य- तद्- (परि.) द.
 तानव- √तन् (परि.) द.
 तापक- १-२तापन- √तप्(परि.) द.
 ताम्बूल- ४दक्षिणा°, दन्तधावन°,
 नैवेद्य°, संगम°, म्रज्°
 *ताम्बूल-पत्र- पूग°, यावत्°
 ताम्बूल(ल-आ)घ- १भोग°
 ताम्र- आ°, कु°, सौवर्ण्य°
 १तार- गम्. ५३५९ द.
 २तार, रा- २मह°, राशि°
 २तार-क- चन्द्र°, चम्पक°, ४ध्रुव°,
 विस्फुरत्°, ६स°
 *तारा-जाल- मणिषटितहाटककल-
 चित°
 ३तार- अन्त°, निश्चल°
 ४-७तार- गम्. ५३५९ द.
 ८तार- सुवर्ण°
 ९तार- २मन्द्°
 १तारक- गम्. ५३५९ द.
 २-३तारक- २-३तार- द.
 ४तारक- अर्गति°, पूर्व°, मूर्ति°
 *तारक-योग- पूर्व°
 तारिन्- √तृ (परि.) द.
 तार्य- सु°
 तार्य- √तृ (परि.) द.
 १ताल- आत्र°, कदम्ब°, खर्जूर°,
 महत्°, १वंस°
 २ताल- संगीत°
 ३ताल- गम्. ५३६० द.,
 *४ताल- > *वाल-ज- २मन्द्°
 *१तालीचन्- आत्र°
 तालु- पाद°
 *१तालु(क)- चिद्रपोमन्°
 २तालु-क- २गण्ड°

*तालु-शूल- शिरःशूल°
 √तिज्(बधा.), > तितिक्षु > तिक्-
 कट्ट°, मधुर°
 तिति(क्ष>)क्षा- द्रव्द°
 तितिक्षा-ज्ञान-वैराग्य-शमा-
 (म-आ)दि-गुण-वर्जित- -तः
 पदं १५०:१८!
 तीक्ष्ण- कट्ट°, सु°
 *तीक्ष्ण-शुद्ध- -ज्ञाय मउ३, ११
 तेजस्- ४अ°, अक्षि°, अखण्ड-
 ब्रह्मन्°, अति°, अधिक°, अपकान-
 त्त°, अमित°, अमितते...त°
 अर्कविष्यमि°, आत्मन्°, उग्र°,
 उपशान्त°, ऊर्ध्वस्थित°, चक्षुस्°,
 चन्द्र...ह°, १ज्ञान°, तिग्म°
 तेजस्°, दिव्य°, द्वादशार्क°, नख-
 चन्द्र°, २निरतिशयानन्द°, परम°,
 पृथिवी°, पृथ्वी°, १प्रह्वन्°,
 ब्रह्मविष्णुशुक्र°, महत्°, महत्°,
 रवि°, रस°, शान्ति°, २शुक्र°,
 शुद्धब्रह्मन्°, १सम°, सु°, सूक्ष्म-
 तर°, सूर्या...न्द°, सोमसूर्याग्नि°,
 स्व°, खख°, हस्ताहु...पि°
 तेजस- ३जामत्°, तद्°,
 तुरीय°, तैजस°, २प्राज्ञ°, १विश्व°,
 सुपुत्र°, स्वप्न°
 *तेजः-कूट- २सच्चिदानन्द°
 *तेजः-पर्वत-राजि- अनन्त°
 *तेजः-पुञ्ज- शतस...दि°
 *तेजः-प्रकाश- सर्व°
 *तेजस(क)- ४अ°
 *तेजो-ज्वाला- स्वप्रका...न्द°
 *तेजो-ज्वाला-राशि- निर-
 तिरा...न्द°
 तेजो-विन्दु...- कठवल्ली°
 तेजो-मण्डल- अखण्ड°, अ-
 खण्डदिव्य°, अखण्डानन्द°

*तेजोमण्डल-विध- ४म
 त्रिवि ३२०:१९!
 तेजो-मय- आनन्दमय°, १स्व-
 रूप°
 तेजो-राशि- अखण्डानन्द°, अ-
 खण्डमित°, अनन्त°, अमिता-
 ...शु°, दिव्य°, निरुपम...क°,
 वाचामगोचरानन्त°, वाचामगो-
 चरानन्द°, वाचामगोचरानन्द-
 ब्रह्मन्°, सर्वादि...त°
 *तेजोराशि-विशेष- बोधा-
 नन्द...व्य°
 तेजो-रूप- अति°
 तितोपुं- √तृ (परि.) द.
 तित्तिरि- ईश°
 तैत्तिरीय-> तैत्तिरीयक- कठवल्ली°
 तिथि- पद्यरान्°, १बृहत्°
 तिमिर- अविद्या°, प्रकाश°
 तिरस्-> तिरस्/क > तिरस्-क-
 रि(न्)णी- अपरिच्छिन्न°
 तिरस्-कृत- अति°, निद्रासं...व°
 *तिरस्-कृति- विजतीय°
 तिरो(रस्/अ)न्च्-> तीर्थ(रि-अ)च्-
 १देव°
 तिरो/घा > *तिरो-धान- आवि-
 भाव°, निमेष°, संहार°
 तिरो/भू > *तिरो-भाव- आवि-
 भाव°
 √तिल > तिल- पालाश°
 तैल- अतसी°, अन्तःसुगन्ध°,
 एरण्ड°, क्षीर°, घृत°, चम्पक°,
 तिल°, वैराग्य°
 तिलक- कस्तूरी°, गोरोचना°, चन्दन°,
 मण्णि°
 तीर- २जल°, नदी°, ब्रह्मविद्या°,
 सत्य°
 तीर्थ- अर्थ म४९:१९. [०थं- अग्नि°]

a) व्यु.? = सूत्र- । b) व्यु.? = उच्य- । c) गम्. (५३५९) ३, ४तार- इत्यत्र यनि. शोधः द. । d) गम्. (५३६०) संख्यायिर्ष परिहृतं द. । e) गम्. (५३६०) यनि. संख्यानिर्देशः द. । f) निसा. अया. । g) = तदाख्योपनिषद्-विशेष- । h) बया. द. । = आचार्यविशेष-, उपनिषद्विशेष- ।

अन्तर्, अभिप्रेक, अलकानन्दा
आत्मन्, १कथा, गङ्गागोमती
गुरु, १चक्र, गृहभद्रा, दिव्य,
१देव, २पुरण, प्रयागादि, ब-
हिस, १भद्रन्, १भाव, महत्,
महोदधि, १शिव, शिवोगा,
सकल, सर्व, सागर, सार्धत्रि-
कोटि]

+ तीर्थ-क्षेत्र- गङ्गादि

तीर्थ- अत्युप

तुङ्ग- उद्

+ तुङ्ग- कौपीनखण्ड, १चक्र, चन्द्र
वक्र, १वज्र, १विप

+ तुण्ड- द्रु(द्रु) > द्रु- १विप

+ तुद् उद्, प्र, वि

+ तोद- प्र

तुन्वी- क्षीर

+ तुन्वुरू- सनक

+ तुल् > तुल > क्का- ४अ

तुल्य- ४अ, अभ्रगजादि, आत्मन्
एतद्, २ग्या, तद्, तिल,
१बीज, मृत, रवि, दरान्,
१राह, शिरस्, १शिव, स्वन्

तुलसी- आनन्द, पद्माक्ष

+ तुलसी- नलिना(न-अ)क्ष-मा-

(ला) > क्क- कण्ठलान

+ तुप्, > तोषि परि, प्र, सम्

तुष्ट- ४अ, सम्

तुष्टि- ४अ, १मनस्, विपर्यय

+ तुष्ट्या प्र

+ तोष- अन्तर्, सम्

+ तोषण- गुरु, चित

+ तीर्थ- परि, सम्

तुप- कार्पासारिध

+ तूर्य- ६स

तूल- इषीका, लघु, शाल्मलि

+ तु(लक) > लिका- सु

+ तुण्य > तुण- जगप, १त्रिजगत्,

पर्वत, १फल, शमीन्धन,

२वासना, पृच्छ, शृच्छ, २हरित

+ तृण- कूट- शल्यागार

तृण- चनस्पति- तयः मै १, ४!

+ तृणा(ण-अ)द्- ४अ

+ तुद् अमि, आ, प्र, वि, सम्

+ तर्दन- प्र

+ तृण- आ, सम्

+ तुप्, > तर्षि परि, सम्

तर्षण- णम् भा ३३. [०ण-

प्राण, जप, पितृ, प्राणस्थाप-

न, १धाद्, स्नान]

+ तर्षयित्वा, + तर्ष्य सम्

+ तृप्त- ४अ, अग्नि, आत्मन्,

१ज्ञान, ज्ञानविज्ञान, ज्ञानामृत,

१नित्य, सम्, सर्ववेदान्त,

१स्वानन्द

+ तृप्ति(त-इ)न्द्रिय- ४अ

तृप्ति- द्विज, १नित्य, परि, १शिव

सम्

+ तुप् > तुप्, तु(प) > या- १चुप्

तृप्ण, प्या- अन्तर्, १चुप्, निस्,

१भाव, १भोग, मृग, वि,

शुद्ध

+ तृष्णा- गृह(ह-अ)ङ्गण- वलगत

+ तु, > तद्, तिद्, वारि, तित्तीर्ष अति,

अभिप्र, अष, उद्, उदुद्,

निस्, प्र, व्यक्ति, सम्, समुद्

+ तर्त्त- दुस्, सूचिकाच्छे

+ तरण- संसार

१तार- अष, १नमन्, १नमन्,

मद्, ६स, स्व

तार- सार- ईशावास्य

१तारक- क्रम् तुपु, १५. [०क-

अद्भ्य, मन्त्र, मुक्ति, १मृत्यु,
वैरोचन, श्रीराम, संसार]

तारण- गभादि, संसार

२सारित- उद्

+ तारिन्- अभिप्र, संसाराणव

+ तार्य, + तित्तीर्थ- उद्

तीर्ण- अष, उदुद्, समुद्

+ तीर्थ उद्, निस्

तेजस्क- / तिज् (वधा.) परि. द.

तोय- गोण्पद, १ज्ञान, तुला, पयस-

नी, मद्, १राह, शान्ति,

सपुष्पाक्षत, हेमन्

+ तोय-द्- १नील

तोरण- छत्र, पताका, प्राकार

+ त- + त्ति- दा (दाने) परि. द.

+ त्यज् परि, सम्, संपरि

त्यक्त- परि, मद्, सम्

त्यक्त्वा सम्

त्यजत्- परि, सम्

त्यज्य परि, सम्, संपरि

त्याग- गः श्रे १, १९. [०ग- अ-

न्यकलना, अहंकारकला, कर्मन्

कर्मफल, चित्त, चिन्ता, श्रेय,

तद्, देह, ध्येय, नित्यवि- ल,

१पस, परि, भयमो- ध,

भूमि, मनोमल, मैथुन, विषय,

वै, २वासना, सत्, सम्, संप-

परि, सर्वकर्मफल, सर्वधर्म,

स्वेप्सित- ४अ

त्यागिन्- ४अ, कृत्वमललवण,

कर्मफल, परि, महत्, मातापितृ-

गुरु, सम्, सर्व

+ त्यागिन्- धन

त्याज्य- परि

त्र- / त्रै (परि.) द.

+ त्रप > त्रप > या- गत

a) व्यु. १ ब्रमा. द. । b) व्यु. ? = वाचविशेष- । c) 'वक्ष' इति पा. ! यनि. शोधः द. [तु. मैत्रि १, ४

(एतदनु गप. [पृ३६५] 'तृणवत्' इत्यत्र यनि. शोधः द.) । d) तात्रि. अया. । e) कर्तारि कर्मणि वा कृत् ।

f) ब्रमा. द. । = भाप., श्रोमू-, १तारक- । g) = तदाख्योपनिषद्-विशेष- (गप. पृ३६५० यनि. शोधः द.) । h) वैतु.

उम. अक्षता इति (गप. पृ३६५० यनि. शोधः द.) । i) अज्याः यो. अया. ।

त्रपुस^१- बालुका^०
√त्रस्> **त्रस्त-** १भय^०
त्रि->**त्रि-** द्वि^०, द्वि^०
वृतीय- -यः तु टि^०; -ये मना १,
 ४५. [०य- प्रथम^०, प्रात^०]
 * **वृतीय(-क)-** ट^०
२वृतीय-क-
वृतीय-भाग- लिङ्ग^०
त्रय- अकारादि^०, अक्षर^०, अमि^०,
 अनाज्ञात^०, अवस्था^०, २आय^०,
 आश्रम^०, इयुक्तेषु^०, श्रुतु^०, १एप-
 णा^०, ओष^०, कारण^०, कर्मन्^०, का-
 मे...ता^०, २काल^०, कोष्ण^०, कोरा^०,
 गुण^०, गुणलोक^०, गृह^०, ग्रन्थ^०,
 जगत्^०, जिह्वा^०, जीव^०, ठान्त^०,
 तस्व^०, ताप^०, २तामूल^०, तेजस्^०,
 त्रिकूट^०, दिन^०, दुःख^०, देह^०, देहा-
 दि^०, नेत्र^०, धामन्^०, धूपदि^०,
 परमदंसादि^०, परिष्णाम^०, परिधि^०,
 पाद्^०, २पुर^०, पूर्णाहुति^०, प्रण-
 व...एङ्^०, प्रदक्षिण^०, २बन्ध^०,
 बिम्ब^०, १बीज^०, भाग^०, ३भा-
 वना^०, २युवन^०, भूमि^०, भेद^०,
 महावाक्य^०, मार्ग^०, मास^०, मुख^०,
 मुनि^०, १सहृत्^०, मूर्ति^०, मेखला^०,
 रेखा^०, रेचकादि^०, लक्षणा^०,
 लक्ष्म^०, लिङ्ग^०, लोक^०, बक्ष्य^०,
 १वर्ण^०, १वर्ण^०, वधि^०, वाक्य^०,
 २वार^०, २वासना^०, विकल्प^०,
 वृक्ष^०, व्यापक^०, व्याहृति^०, शक्ति^०,
 रात^०, शरीर^०, श्याम्बीर^०, शुभे-
 च्छादि^०, संवत्सर^०, १संध्या^०,
 संबन्ध^०, १सवन^०, सुभगा^०, सूत्र^०,
 स्थान^०, स्थानकाल^०
त्रयस्-> **त्रयस-त्रिमास-** **त्रय-**
क्षिरा- त्रिणव^०

त्रयो-दशन्- द्वादशन्^०
त्रयोदश-> **त्रयोदशी-**
-शी तु १०^०.
त्रि-क- श्च^०, कामेश्वरयोदि^०,
 १मूल^०
त्रि-कूट- तन्मध्यकणिका^०
+त्रि-कोटि- सार्ध^०
२त्रि-कोण- अन्तर्^०, चतुरस्र^०,
 पूर्वोक्त^०, मूलाधार^०, सहस्रियत^०
+त्रिकोण-देषता- विलेपरांतया-
 ...कि^०
त्रिकोण-चन्द्र- दुष्ट^०
+त्रिकोणा(रा-श्र)म- चतुष्टय-
 मध्य^०
१त्रि-गुण- भूत^०
त्रैगुण्य- निर्व^०
त्रि-चतुर- त्रिचतुर^०, त्रिचतुर^०
+त्रि-तय- अगठ^०, अन्त^०, अवस्था^०
 भूमिका^०, लितादि^०
त्रि-धा- द्विधा^०
***त्रिन्->** **त्रि-शस्-** अष्टन्^०, ऊन^०,
 एक^०, एकीन^०, चतुर्^०, त्रयस्^०,
 दि^०, पञ्चन्^०, षष्^०, सप्तन्^०.
+त्रिशाक- २कुल^०.
+त्रि-सति!- द्वि^०
१त्रि-नेत्र- अरण्य^०
२त्रि-नेत्र-
त्रि-पुण्ड- सद्गुलन^०, भस्मन्^०
+त्रैपुण्ड-> **त्रैपुण्डित-**
 दग्धकामा...ति^०
+१त्रिपुण्ड(-क)- भस्मदीप्त^०
२त्रिपुण्ड-क-
+त्रिपुण्ड-रेखा- तिर्यक्^०
+त्रिपुण्ड्रा(एङ्-श्र)ङ्- तिर्यक्^०
३त्रि-पुर, रा- महत्^०, ऐतरेय^०
त्रिपुरा-सपन्!- २प्रक्ष^०
त्रि-लोक-> त्रैलोक्य-> त्रैलो-

यय-रक्षण- घृत^०
त्रि-विध-> त्रैविध्य- अविना-
 रित्^०, उपासा^०
***त्रिविध-विमो(म-उ)सारण-**
 जलशुद्धि...न^०
१त्रि-पुत्-> त्रिपुत्-सूत्र- ग्रम्
 नाप १५१: ८^०.
त्रि-शिक्षा-> त्रिशिक्षित्-> त्रि-
 शिखर-ब्राह्मण^१!- ईशावास्य^०
त्रि-शूल- अक्ष^०, १यज्ञ^०
त्रि-शुभ- गायत्री^०
त्रिस्(>र)-> त्रि-शाल्व- नव-
 तत्त्वं^०
१श्व(त्रि-श्र)क्षर-
२श्व(त्रि-श्र)क्ष(र>)री- नीलकण्ठ^०
श्व(त्रि-श्र)ह-> श्वेदिक-> श्वे-
 दिक-ज्वर!- अतिभयंकरज्वर^०
***त्रिवेदी-** २जल^०, वन^०, स्थल^०
√त्र> या परि^०, सम^०.
***त्र, श्रा-** ४श्व^०, अमितभर^०, आतप^०,
 ककुद्^०, गिरि^०, गो^०, रथिमस्तुर^०
त्राण- परि^०, २भक्त^०, शीतवातोष्ण^०
श्रात्- -तारम मउ २०, ३९^०.
√त्वच्-> १स्वच्- मांस^०, १व्याघ्र-
***त्वच्-दोष-** १चय^०.
***त्वग्-रोग-** गरुड...दि^०
२स्वच्- चक्षुस्^०, पाद^०, पृथिवी^०
श्रोत्र^०
३स्वच्- आश^०
४स्वच्- गप्- पृ ३७८ द.
५स्वच्-मि- पुष्प^०, फल^०, १मूल^०
६स^०
त्वच्-त्वग्, स्वप्- युष्माद्- द-
√त्वर्-> त्वर- ६स^०
१-२स्वा- युष्माद्- द.
√त्विव्-> त्रिविव्- चन्द्रस्य^०

a) व्यु? । b) पा? ह्रीत्वपरः शोषः द. । c) 'समाने' इति शी २, १, ५ (तु. द्वि. वैप१ यस्या.) । d) गप्.
 (पृ ३७०) यनि. संख्यानिर्देशः द. । e) गप्. (पृ ३७०) 'त्रयोदशन्-> -श' इति पा? यनि. शोषः द. । f) =त्रिखर- ।
 g) द्विस्. । h) गप्. (पृ ३७३) यनि. संख्यानिर्देशः द. । i) श्रब्धाः सं. अप्रा. । j) =तदाव्योपनिषद्-विशेष- । k) गप्.
 (पृ ३७७) यनि. संख्यानिर्देशः द. । l) श्रु ६, ४७, ११ । m) व्यु? =धक्कल- ।

द

१-२६ गप्, ५३७८ द.
 ३६- √दम् (परि.) द.
 ४६- √दा (दाने) परि. द.
 ५६- √दो (अवखण्डने) परि. द.
 √दंश्, >दंश- सम्^०
 दंष्ट्र, दंष्ट्रा- कराल^०, कुटिल^०, ती-
 द्यु^०, तुण्ड^०, प्रकटित^०, बहु^०,
 ३भीम^०, महोत्त^०, १वम^०,
 १विव^०, सर्प^०, हिरण्य^०
 +दइय सम्^०
 दष्ट- कृमि^०, महोरग^०, विषय^०
 √दन्त् (बधा.) >१दक्ष- सु^०
 २दक्ष- ३वाग^०
 +दक्ष-कव्य(ति-अ)न्त-वामांस^०
 दक्ष-पादर्व- तद्^०
 ३दक्ष- स्थाणु^०
 १दक्षिण- ३वाम^०, १सव्य^०
 +दक्षिण-कटि- वामचाहु^०
 +दक्षिणकव्य(ति-अ)न्त-
 वामांसादि^०
 +दक्षिण-कर-युग- खड्ग-
 कर्तु^०
 १दक्षिणतस*(>):
 २दक्षिण- आहवनीय^०, उत्तर^०,
 उद्यू^०, नाभि^०
 २दक्षिणतस*(>): १शिव^०
 दक्षिण(ख-अ)मिन्^१- गार्ह-
 पत्य^०
 ३दक्षिण- णम्, णेन जाद ३,
 ६, १^०
 ३दक्षिणतस*(>): वषट्क^०:
 १११^०
 ४दक्षिण, णा- ४अ^०, उत्तम^०, बहु^०,
 १मध्यम^०, ६घ^०
 ५दक्षिण- गप्, ५३८० द.

६दक्षिण(ण)णा->दक्षिणा-
 मूर्ति^०- कठवरली^०
 +दक्षिणामूर्ति-मन्त्र- १मेधा^०
 ७दक्षिण(ण)णा^{१०}-
 दण्ड- अग्नि^०, इक्षु^०, इन्द्र^०, उत्सृष्टि^०,
 ऊर्ध्व^०, एक^०, कर्मन्^० काय^०,
 १काल^०, काष्ठ^०, २कुमेर^०, दार^०,
 १ज्ञान^०, त्रि^०, दौर्घ^०, १धृति^०,
 निश्चैति^०, पात्र^०, प्रखण्ड^०, प्रलो-
 भ^०, १नक्षत्र^०, भुज^०, १मनसु^०,
 सुदर^०, १यम^०, १ध्व^०, १वज्र^०,
 १वहण^०, १वाचु^०, वायु^०, विकार^०,
 विचार^० विवेक^०, विष्णु^०, वीणा^०
 सीमन्त^०
 दण्ड-क- तद्^०
 +दण्डका(क-अ)स्त्र^१- पाशुपत-
 स्त्र^०
 +दण्ड-धर- ५न^०
 दन्त्र- सु^०
 दूदान- √दा (दाने) परि. द.
 +दध- दधातु- दधिवामन- √धा
 (परि.) द.
 दनु-
 दानव- १देव^०, दैत्य^०
 +दनु-ज- रक्तबीज^०
 दन्त- एक^०, ३नाग^०, १पार्व^०, मखि^०,
 राजन्^०, १वज्र^०, १विव^०, २शुक्र^०,
 १श्वन्न^०
 +दन्->+दन्(क)- ४अ^०
 +दन्त(क)- रयाव^०
 +दन्त-शूल^१- अक्षशूल^०
 +दन्त(न्त-अ)दिथ-शकल- दष्ट^०
 दन्तिन्- न्ती मना १, ५१५^०
 √दम्, म् >दम्- ४अ^०
 दम्भ- ४अ^०, १काम^०, निन्दा^०,
 राग^०
 +दम्भिन्->दम्भिन्-स्व- ४अ^०

√दम् >३६- विजु^०
 दम- तपस्^०, शम^०
 दमान- सर्वमृत^०
 दान्त- ४अ^०
 +दान्त-स्व- प्रकृति^०
 +दान्ति- शान्ति^०
 √दय >द(य)या- अहिंसा^०, सर्व^०
 दर- √द (परि.) द.
 दरिद्र->दारिद्र्य- सर्व^०
 दूर्तव्य- √द (परि.) द.
 दार्घ्य- कनक^०
 १दश^१(१०)- ४अ^०
 २दश- दशरु- दशिन- दशिवस-
 √दश (परि.) द.
 √दल >दल- अग्नि^०, आग्नेय^०, अश्व-
 त्य^०, अष्टन्^०, अष्टादशन्^०, इन्दी-
 वर^०, ईशान^०, उत्तर^०, चतुर्^०,
 चतुर्दशन्^०, चतुर्विंशति^०, चत्वा-
 रिंशत्^०, तत्पत्न^०, तद्^०, त्रि^०,
 २दक्षिण^०, दशन्^०, द्वात्रिंशत्^०,
 द्वावशन्^०, द्वि^०, नवन्^०, नीलो-
 त्पल^०, २नैश्चैत^०, पञ्चाशत्^०,
 परिचम^०, पूर्व^०, प्रति^०, प्राच्य^०,
 बिल्व^०, मध्य^०, वसु^०, वायव्य^०,
 वायु^०, शत^०, श्रीफल^०, पदत्रिं-
 शत्^०, पप^०, षोडशन्^०, सहस्र^०
 दल-सं(स्य)या- स्था-मै५, २१^१।
 + √ दश (दाने) अघि^०
 दशन्- शसु अशि ४^१। [०न्- अ-
 षन्^०, एक^०, चतुर्^०, चतुर्^०;
 त्रयत्^०, त्रि^०, द्वि^०, पधन्^०, पडहु-
 ल^०, पृष^०, सामन्^०]
 दश-क- १अ^०, अणिमासिद्धपादि^०
 १सुत्रा^०, मायु^०, विप्र^०, सर्वज्ञादि^०,
 सर्वसंज्ञोभिययादि^०, सर्वसिद्धि-
 प्रदादि^०

a) गप्, (५३७५) यनि. संख्यानिर्देशः द. । b) अघ्याः यो. अया. । c) गप्, (५३८०) यनि. संख्या-
 निर्देशः द. । d) श्र १०, ८३, ७ (गप्, ५३८०) यनि. शोषः द. । e) बया. द. । =व्यसं, उपनिषदियोर- ।
 f) वैपरी यद. । g) मैसं २, ५, १ (तु. टि. वैपरी यस्था.) । h) गप्, (५३८२) यनि. संख्यानिर्देशः द. । i) पा. १ यनि.
 शोषः द. (तु. मैत्रि ६, २) । j) अघ्याः यो. अया. ।

दशम- आ°
 दश-श्लोक>की- श्रीसरस्वती°,
 सरस्वती°
 दशा(श-श्र्)श- तद्°
 +दशा(श-श्र्)क्षर-मन्त्र- रामकृष्ण°
 दशा(श-श्र्)र- अन्तर°, तद्°
 दशा- १आशा°, २चैत्य°, २जाग्रत्°,
 जीवन्मुक्ति°, १ज्ञान°, २दृष्टय°,
 नैरात्म्यसिद्धान्त°, मादाभाव°,
 वस्तु°, संकल्प°, सुखदुःख°,
 सुपुति°
 दृश्य ✓दंश(शरि.) द्र.
 ✓दह् आ°, ति°, निर्द्°, परि°, प्र°,
 प्रति°, वि°, व्यतिसम्°, सम्°
 दग्ध- ४अ°, चिन्तानसशिखा°,
 ज्ञानाग्नि°, दोषदावाग्नि°, निर्द्°,
 मन्त्रसंस्कार°, वि°, सदात्म...न°
 दग्ध्वा सम्°
 दहत्- निर्द्°
 दहन- आ°, कामादिवृत्ति°, पित्रा-
 दिशरि°, भावाभाव°, मायाम...
 र°, सर्व°
 +दाध- लि°
 दाह- अयस्°, आ°, छेदन°,°
 प्वार°, दाव°, प्र°, धम°
 +दाहक- रेचक°
 दास- ४अ°
 दहर- झू°
 ✓दा(दाने)अपा°, आमिव्या°, अभ्यव°,
 अभ्या°, आ°, उदा°, उपा°, परा°,
 परि°, प्र°, प्रप्र°, व्या°, सम्°,
 समभ्या°, समा°, संप्र°
 +दा- अपा°, अभ्या°, आ°, उदा°,
 उपा°, व्या°
 +दा- संप्र°
 +द- अनन्तरसभोग°, अनादृत्य-
 दि°, अक्ष°, अभीष्ट°, अभीष्टक-
 ल°, अम्बु°, अमुम्°, आ°, १इष्ट°,
 कल्याण°, १काम°, कामितार्थ°

केलि°, कैवल्यसिद्धि°, जगदा...
 दि°, २जल°, १ज्ञान°, ज्ञानवैराग्य°
 दीर्घदुःख°, दुःख°, धन°, धर्म°,
 धर्मार्यकाम°, नवत्°, नीर°, पद्म-
 द्वय°, परमसुख°, पारमै...दि°
 १पुरण°, १पुत्र°, पुष्टि°, प्र°,
 १फल°, १भोग°, १महाविभूति°,
 मारम्°, सुक्ति°, १मोक्ष°, मोक्ष-
 फल°, मोक्षसिद्धि°, यथोक्तफल°,
 यशस्°, २योग°, १रति°, रयि°,
 रयिम्°, रस°, १वर°, वाक्सिद्धि°,
 विपरीतसुख°, विमुक्ति°, विरक्ति°,
 शर्मन्°, १शिव°, शीतो...ख°
 शुभ°, सकलविभूति°, सकलसि-
 दि°, समानफल°, संभोगसुख°,
 सर्वे°, १सर्वकाम°, सर्वकामार्थ°,
 सर्वमन्त्रफल°, सर्वयोगप्राप्तिसिद्धि°,
 सर्वसिद्धि°, सर्वसौभाग्य°, साधु-
 सिद्धि°, सिद्धि°, सुख°, सौभाग्य°
 हर्ष°, हर्षोपपेविकार°
 १दत्त- ४अ°, गुरु°, जमदग्नि°,
 १देव°, नासाप्र°, प्र°, १ब्रह्मन्°,
 मद्°, १सोम°
 २दत्त- १देव°
 ३दत्त->दत्ता(त-था)त्रेय°-
 २निदाघ°, २प्रक्ष°, श्वेतकेतु°
 २संघर्षक°
 दत्त्वा ४अ°
 +ददाव- ४अ°, आ°, समभ्या°
 +दा- आत्मन्°, तेजस्°, शुभ्रस्°,
 १नित्य°, १बल°, वचस्°, स्वस्ति°
 दातव्य- आ°, प्र°
 +दाति- हव्य°
 दायुम् आ°
 दाह- अष्टसिद्धि°, आसनमे...ख°,
 १काम°, कामसं...ह°, गो°,
 चतुस्तेजस्°, ज्ञाननिषोण°, तद्°,
 तद्वस्तु°, दानधर्म°, निधि°, पुण्य-
 शय्या...ख°, प्र°, प्रप्र°, मक्ति°

रति°, भद्रार्थ°, १भोग°, १रति°,
 रस°, रसलम्प...ह°, रसिचान-
 ...स°, वाञ्छितफल°, १विज्ञान°,
 शास्त्र°, सकलकाम°, सुख°, सुमे-
 र°, सुरतान...स°, हिरण्य°
 १दान- अभ्यव°, अर्घ्य°, अशेष-
 फल°, अशेषरस°, आ°, आत्मतु-
 ...दि°, आमोदा...न°, उपा°,
 १कथा°, १कन्या°, गो°, गोपी-
 चन्दन°, चतुःस...म्°, जप°, तद्°
 तपस्°, तीर्थे°, तुलापुष्प°, नि-
 यम°, पिएड°, प्र°, बलि°, १मनु°
 महत्°, यज्ञ°, याग°, रस°, १वर्°
 वस्तु°, विद्या°, व्रत°, १शिव°,
 संप्र°, सर्व°, ज्ञान°
 +दान-रूप- अत्यन्त°
 दान-लीला- दानश्रेणि°
 +१दाय आ°, उपा°, प्र°, समा°
 +१दाय- संप्र°
 +२दाय->दाया(य-आ)द- कर्मर°
 +३दाय- शत°
 +दायक- अभय°, आनन्द°, परमा-
 नन्द°, १महदानन्द°, महाबोध°,
 १मोक्ष°, १रति°, सर्वसौभाग्य°,
 सुख°
 दायिन्- अगणितानन्द°, अह-
 सुख°, अनन्तचरित्र°, अभय°,
 आनन्द°, आनन्दरस°, गुणरति°,
 दानलीलासुख°, दुःख°, बहु°,
 १भोग°, महासौभाग्य°, १मोक्ष°,
 मोक्षसाम्राज्य°, मोद°, धचनसुख°
 वैराग्य°, श्रमादिगुण°, सर्वसौभा-
 ग्य°, साम्राज्य°, सुख°, सुरतान...
 ख°, छष्टिरूपगुण°, स्वहृदानन्द°
 +दि- दीयमान- आ°
 +दु- पुनर्द्°
 देय- ४अ°, उपा°, प्र°, १बल°,
 धन्दा°
 दात- ✓दे (शोधने) परि. द्र.

a) भावे कर्तार वा कृत्। b) वप्र. द्र। =व्यसं., उपनिषदिस्रोत-। c) धा. अर्थः?। d) कर्मणि कृत्। e) कर्तार कृत्।

दाति- १दान- √दा (दाने) परि. द्र.
 २दान- √दै (शोधने) द्र.
 ३दान- √दो (अवखण्डने) परि. द्र.
 दान्ति- √दम्(परि.) द्र.
 दामन्- उद्, अन्कचम्बक°, पुष्प°,
 मालती°, विचित्रपुष्पम्, ६स°,
 सु°, सूत्र°
 १दाय √दा (दाने) परि. द्र.
 २दाय°
 १-३दाय- दायक°- √दा(दाने)परि.द्र.
 दार- गुरु°, धन°, पर°, पितृ°, १पुत्र°,
 स्व°
 *दार-पुत्रा(त्र-अ)भिलापित्- ५न°
 दारु^१- काष्ठ°, ताम्र°, तुलसी°,
 १मूल°, सूत्र°
 दारुण°- दार्य° √दृ (परि.) द्र.
 √दास् अभि°
 दास- अतु°, गर्भ°, दास°, दिवन्°,
 धन°, १महि°
 दासी- माया°
 *दासी-परिचा(रक>)-
 रिका- ६स°
 दास्य- २धन्य°°
 दाहक- √दह् (परि.) द्र.
 दि- √दा (दाने) परि. द्र.
 दित- √दो(अवखण्डने) परि. द्र.
 दिदृक्षा- √दृश् (परि.) द्र.
 *दिच- √धा (परि.) द्र.
 दिच्छास- दिच्छास- दिच्छासि-
 तच्य- √ध्वे (परि.) द्र.
 दिन- अल्प°, अष्टन्°, एक°, त्रि°, द्वि°,
 पञ्चदशन्°, प्रति°, प्रतिपद्°, बहु°,
 मध्यम्, महालक्ष्मीवत्, सप्तन्°,
 १संथा°
 *दिन-कृत्- हरि°
 √दिच्, >देवि परि°
 दिव्->दिव्य-अखण्ड°, अनन्त°,
 १देव°, बोधानन्दमय°, विद्या-

नन्दमय°, शिवानन्दमय°,
 समस्त°°
 *दिव्य-तीर्थ- अनन्त°
 दिव्य-तेजस्- अनन्त°,
 अपरे...न्त°, अमिते...त°,
 तदन्तर्गत°, निरतिशय°, २निर-
 तिशयानन्द°, सुदर्शन°
 *दिव्यतेजः-पर्वत- अ-
 नन्त°
 *दिव्यतेजो-ज्वाला-
 जाल- अनन्त°
 दिव्यतेजो-मय- केवल-
 मन्त्रमय°
 *दिव्यतेजोमय-
 ज्वाला-जाल-वाचामगो...धि°
 *दिव्य-तेजो-राशि-वाचा-
 मगो...न्त°, वैष्णव°
 १दिव्य-देह- सर्व°
 *दिव्य-मङ्गल- धानन्द°,
 समस्त°
 *दिव्यमङ्गला(ल-आ)-
 कार- अति°
 दिव्य-मङ्गला(ल-आ)सन-
 अनन्त°
 *दिव्य-विमान-तदन्तर्गत°
 *दिव्य-विमान-च्छत्र-ध्व-
 ज- चिन्मयानन्द°
 *दिव्य-शक्ति- दिव्यायुध°,
 शम्भुमादि°
 *दिव्य-सुगन्ध- अखण्ड-
 ...ह°
 *दिव्य-सौदामनी- परिपू-
 र्णानन्द°
 *दिव्या(व्य-आ)नन्द- निर-
 तिशयानन्त°
 *दिव्या(व्य-आ)भरण- अ-
 नेक°
 *दिव्या(व्य-आ)युध->दि-

व्यायुध-दिव्यशक्ति- अनन्त°
 *दिव्या(व्य-आ)शम- अ-
 नन्त°
 सु- परे°, एवं°
 १दिव- त्रि°
 १देव-...च मउ९, ७५; -बो धृद, ५,
 २ १५ [°व, ची- ४अ°, अति°,
 अतिथि°, अधि°, अमृतावयव°,
 आचार्य°, आज्ञान°, १आदि°,
 कर्मन्, कर्मन्°, १काम°, २कीर्ति°
 १कौल°, गुरु°, चतुर्मुप°, ति-
 र्यक्°, ३त्रिपुरा°, दुराता-य°, नि-
 कुञ्ज°, १देव°, देवत°, ५न°, पितृ°,
 २पुण्य°, २प्ररन्°, चाल्य°, १भू°,
 महर्, महामाया°, महापातु°,
 २मातृ°, माया°, बाग°, रक्ष्, २
 वरसुनि°, १वरुण°, ४वर्ष°, वसु°,
 १वाच°, ४वाम°, वायु°, १विश्व°,
 विष्णु°, २शुक°, ३शेष°, श्री°,
 ६स°, सर्प°, १सर्वशक्ति°, १सुधा°]
 देव- अधि°
 देव-शुह- १शिव°, शून्यागार°
 देव-वा- -ता: नाप १५१:७°
 [°ता- अग्नि°, अधि°, अन्य°,
 अष्टाक्षर...य°, आदित्य°, उपास्य°,
 आकारपीठ°, १इष्ट°, ईशान°,
 ऋषि°, कर्मन्दिश्य°, कामेश्वर्या-
 दि°, किम्, गुरु°, चतुरभ्र°, चन्द्र°
 चन्द्रसूर्याभि°, ज्ञानेन्द्रिय°, तत्तद्°,
 तत्त्व°, तद्विलक्ष...र°, २त्रिकोण°
 नाना°, पर°, पीठोपपीठ°, पञ्चन्°,
 प्रति°, प्राण°, बलि°, १प्रह्लादम्°,
 मन्त्र°, १यम°, १वरुण°, १वाच°,
 वायु°, विपय°, विष्णु°, विष्णु...
 क°, सकल°, सर्व°, सर्वज्ञा...ग°
 सर्वसंज्ञो...ग°, सर्वचन्द्राभि°,
 १सोम°, सोमस्युभि°, स्वेट°,
 दैवत- अक्षर°, अधि°,

a) गपू. (५३८६) यनि. संख्यानिर्देशः द्र. । b) गपू. (५३८६) प्रकाशितचरं परिहृतं द्र. । c) ऋ ५, ८२, ५ ।
 d) ऋ १०, १८४, २ (तु. टि. वैप १ यस्थाः । n) अत्र्याः सं. अयाः ।

ईशान्, श्रुतिः, कोषः, १ छन्दस्
 २ त्रिकोणं, पञ्चनं, प्रत्यक्षं,
 प्रत्यक्षरं, १ ब्रह्मरं, २ भगं,
 यथा, स्त्रैकादशं, वह्निं, सर्वं
 देवस्य-आत्मपरमात्मनं
 ईशानं, त्रिं, पञ्चनं, १ पुरुषं,
 १ ब्रह्मनं, महद्ब्रह्मनं, १ यमं,
 १ रुद्रं, लक्ष्मीनारायणं, विष्णुं,
 सर्वं, ह्यग्नीव

देवता-प्रसाद-ग्रहण-गम्
 नाप १९९ : ३*

देवता(ता-आ)लय-पर्वत

३ देव-दत्त-२ नागं, प्राणं

+ देव-प्रस्थ-२ सुश्लोकं

देव(व-श्रु)र्षि-सर्वं

+ देव-वनि(त)ना-समस्तं

+ देव-वेद-सर्वं

+ देव-हार-२ सुश्लोकं

देवा(व-श्र)गार-निजेन

देवा(व-श्र)दि-संक्षिप्तं

देवे(व-ई)श-दुहिणादिभ

२ देव(२विध-)-वाः-(श्वे) छां १,

१३, २; २, २४, १६*

+ देव(न)ना-+ देवया-परि

२ दिव->दिवा>दिवा-कर-राय

मउ ३, ८; ९. [०र-अरुणं,

उयत्, १ कोटिं, तरुणं, मार्ता-

ण्डादि]

+ दिवा-गति-विभाग-५नं

दिवस-अर्थे घटिकां, प्रति

√ दिग्(वधा), > देशि अति, आ,

उद्, उप, नि, निर्, प्र, प्रति-

सम्, विनिर्, व्यप, व्या,

समा, समुद्, समुपा

दिग्-दिशु अशि ष्ट; दिशः मना

१, ४^१। [०ग्-अन्तरा, अवा-

न्तर, अष्टनं, आ, आकाशं,

अमियं, ईशानं, उप, २ कुवेरं,

चतुर्, तद्, दक्षिणात्, ०,
 दशान्, देशं, द्वादशान्, निर्घृ-
 तिं, निशाकरं, पातालं, पूर्वं,
 पूर्वादि, प्रति, प्राच्यादि, १ या-
 म्यं, १ वरुणं, वायव्यं, वि

दिक्-काल-प्रकृति

दिक्-पाल-अष्टनं, भूतं

+ दिक्-पालक-अष्टनं

+ दिग्-अन्तर-अग्निं, महाद्रा-

...तं, सकलं

+ दिग्-देश-काल-४अं

दिग्-यन्धन-कवचं

+ दिग्-भर-आवृति

+ दिग्-भ्रम-विनष्टं

+ दिशा-अवागन्तं, चतुर्

+ दिव्य उद्, उप, समुद्

दिष्ट-आ, उद्, उप, चतुस्,

निर्, प्र, व्यप

देशं-अग्निं, अप्र, अति, अरणि

अवाच्यं, आ, उद्, उप,

उरस्, ऊर्, एकं, कक्षं, कटीं,

कण्ठं, कान्यकुब्जं, कुण्डलीं,

१ गण्डं, गन्तव्यं, गुल्फं, १ गु-

ह्यं, जागरितं, २ जातिं, ज्ञात-

चरं, दिग्, द्रव्यं, नामिं, निं,

निर्, १ पापु, पृष्ठं, प्र, प्रा(<प्र)

वाह्यं, १ भोगं, मध्यं, मेढ्रं,

यथा, रम्यं, लिङ्गं, वि, विक्रं

व्यप, व्या, शरीरं, शिरस्,

शुद्धं, सकलं, सर्वं, रिक्चं,

स्व, स्वशरीराभिमानं, १ हृद्

देश-काल-४अं

+ देशकाल-वस्तु-१ आदि

देशिक-नामा, परमज्ञानं, वेद-

वियान्नतज्ञातं, सर्वं

+ देशिक-विकल्प-जीवेशं

+ देशयत्-आ

+ देशिन्-प्र

+ देश्य उप, निर्
 + देश्य-उप
 + देश्य उप, निर्
 + देश्य-आ, उप

√ दिह् प्र, सम्

दिग्ध-प्र, भस्मन्, सम्

देह-४अं, अत्यन्तसुखं, अनन्तं,

अनेकं, अर्धं, आकाशं, आत्म-

परं, आधिभौतिकं, उपभोगं,

उभयं, क्रमं, कामसंवलितं, का-

रणं, कालीं, चण्डालं, १ जितं,

जानकीं, ज्ञानामिदग्धं, तत्तद्

, तद्, तुलसीकाष्ठाङ्कितं, दिव्यं,

निकृन्नेकं...ष्टं, परस्पर...तं,

पुत्रादि, पूर्व, प्राक्, भास्करा-

कारं, मद्, १ मनस्, महत्,

१ मुक्तं, यावत्, २ योगिन्, रस-

ल...खं, लघुं, ललितदिस्ख-

त्यं, लिङ्गं, १ वज्रं, वस्तुं, विं,

विशिष्टं, विष्णुं, विहारं, १ व्य-

ष्टिं, शक्तिं, शुक्लं, श्रीराधा...

ज्ञं, ६ स, सम्, संप्रकटितं, सर्वं

सूक्ष्मं, स्थूलं, स्थूलसूक्ष्मकार-

णं, स्व, स्वच्छन्दोपात्तं, स्वप्नं

+ १ देह(क)-चिद्रूपं

२ देह-क-

+ देह-मध्य-कटि-आ

देह-वासना-दारीपणा...कं

+ देहा(ह-श्र)त्म-भ्रम-हृत्तरं

देहा(ह-श्र)न्त-अहंकारादि

देहा(ह-श्र)भिमान-त्यहं

देहिन्-एकं, २ कुं, देहं

+ देहा-सम्

√ दी(गती) निर्

√ दी(दीप्ती) गद्, पृ ३९९ द.

√ दी(दीयो)> दीन-४अं, शरणा-

गतं

√ दीन्> दीन्(क्ष)-१ चरणं,

a) अथ्याः सं. अया. । b) गद्. (पृ ३९५) स्थलनिर्देशे गनि. शोषः द. । c) अथ्याः शी. अया. ।
 d) मा ३२, ११; १२ । e) यया. द. । f) गद्. (पृ ३९७) गनि. संख्यानिर्देशः द. ।

जन्मान्त^०, पूर्ण^०, १मेधा^०, शा-
म्भवी^०, संयोग^०
दीक्षित- ४अ^०, १मेधा^०, योगसा-
माज्य^०, शाम्भवी^०, सर्व^०, सर्वनि-
र्वाण^०, हंस^०
√दीप् आ^०, उद्^०, परि^०, प्र^०, सम्^०
दीप- अस्नेह^०, क्लरान्तर^०, गन्ध^०
घटस्थ^०, ३चित्र^०, चित्रस्थ^०,
चिद्रूप^०, १ज्ञान^०, तद्^०, धूप^०, नि-
वात^०, निवातस्थित^०, प्र^०, मन-
प्र...त^०, मूर्ति^०, लोकैक^०, १रिध-
र^०, स्फटिक^०
+दीप-वन- मथुरावन^०
+दीपा(प-आ)दि- १सूर्य^०
दीपक- चतुरासाय^०, परि^०
दीपन- प्र^०, सम्^०
दीपित- १ज्ञान^०, परि^०, वाचाभोगो-
...ल^०
१दीप्त- अग्नि^०, आ^०, २चैतन्य^०, ५,
भस्मन्^०, रविचोटी^०, सम्^०, सु^०,
सूर्यायुतप्रभा^०
दीप्ति- १ज्ञान^०, यद्^०, लघु^०, सदा^०
+दीप्ति-भस्- -मन्तम् गी ११,
१७.
दीप्यमान- प्र^०
+दीप्यमान-गाढतमो(म-उ)-
पम- विस्फुरत्तारकाकार^०
दीर्घ- ४अ^०, अति^०, उदात्त^०, द्विगुण^०
महत्^०, प्रप^०, हंस^०
दीर्घ- द्वादशाक्षुल^०
+दीर्घ-निःस्वन-तन्तु- प्रणवपर्य-
न्त^०
+दीर्घा(र्ष-अ)ङ्ग- स्व^०
√दु(उपतते)> दाव-> +दावा-
(व-अ)प्ति- दीप^०
दु- √दा (दाने) परि. द.
+दुकूल^{११}- विमलतर^०
दुःख- अति^०, अनित्य^०, अनेक^०,
कर्तृत्व^०, कर्तृत्वादि^०, कर्मन्^०,

१काम^०, गर्भजन्म...त्मक^०,
१क्षुध्^०, १घोर^०, विन्ता^०, जन्म-
न्^०, त्रिविध^०, दीर्घ^०, १द्वैत^०, नि-
न्दा^०, निःशेष^०, पयन्^०, परिणाम-
...र^०, १पुत्र^०, पृथिवी^०, भवि-
ष्यत्^०, महत्^०, लोक^०, शीत^०, शो-
क^०, संशान्त^०, संसार^०, सकल^०,
सर्व^०, सु^०, सुख^०
+दुःख-दुरित- समस्त^०
दुःख-निवृत्ति- अत्यन्त^०
+दुःख-सुख- १सम^०
+दुःखा(ख-आ)कार- अत्यन्त^०
दुःखौ(ख-श्रो)घ- कण्ठ^०
दुध- √दुह (परि.) द.
दुन्दुभि- कामदेव^०, १शङ्ख^०
दुर्-आचार- सु^०
दुर्-अत्मन्-> +द्वैराग्य- २संदेह^०
दुर्-इत- -तानि मउ ९, ७७. [०-त-
अखिल^०, दुःख^०, सकल^०, समस्त^०,
सर्व^०]
१दुर्-ग- गम्. पृ४०२ द.
२दुर्-ग- महत्^०, सर्व^०
३दुर्-ग-> दुर्गा- अग्नि^०, अमर^०,
गाणपति^०, चण्ड^०, २जल^०, द-
रडेश^०, भूत^०, लक्ष्मी^०, वडवा-
नल^०, वन^०, सर्व^०, स्थल^०
+१दुर्-गन्ध-> +दुर्गन्ध-ता- स्वेद^०
२दुर्-गन्ध-
दुर्गि- -ग्निः मना १, ७.
+दुर्-ज्ञेय- अति^०
दुर्-दर्श- सु^०
+दुर्-निर-ईत्त- सु^०
+दुर्-बल-> +दीर्घत्व- हृदय^०
दुर्-बोध- सु^०
+दुर्-मनस्-> दीर्घमनस्व- दुःख^०
दुर्-लभ- अति^०, अत्यन्त^०, मुनि^०, सु^०
दुर्-वासना- भ्रष्टादि^०
दुर्-वासस्- २संवर्तक^०, धेतकेतु^०
+दुर्-दोल-> दौल- ज्ञेयदित^०

+दुग्-चर- अति^०, सु^०
√दुप> दूषि प्र^०, सम्^०
दुष्ट- ४अ^०, अनेकदोष^०, जाति...
स्थान^०, सर्प^०, सर्व^०
+दुष्ट-कारण-अन्व-> दुष्ट-
कारणजन्य-व- ४अ^०
दुष्ट-प्रह-> +दुष्टप्रह-म-प्र-
यन्त्र-तन्त्रो(न्त्र-उ)चादिनी-
प्रेरित- परकृत^०
+दुष्ट-दैत्य-दानव- सर्व^०
+दुष्ट-नाग- अनन्तादि^०
+दुष्ट-प्रदुष्ट- +दुष्ट-मृग- सर्व^०
+दुष्ट-चाच- वरय...दि^०
+दूषयव- ४अ^०
दूषक>)पिका- अधु^०
+दूषित- कीटकेशादि^०, रागादिङ्केश^०
रोगादि^०, विपसंतर्ग^०, सम्^०
+दूषिन्- ५कन्या^०, १विप^०
दूष- ४अ^०, अनेक^०, अल^०, अन्यस्मृ-
...श^०, अम्रद्भजन्मन्^०, १अस्त^०,
उद्गीय^०, कफादि^०, कर्मन्^०, काम-
मोघ^०, कामरागादि^०, कार्पण्य^०,
कृमि^०, १कोटि^०, क्षणिकत्वादि^०,
क्षीण^०, गुण^०, जड^०, जन्म...
दुःख^०, १जाति^०, तद्^०, तपस्वीणा-
तुन्द^०, वृष्णा^०, १त्वच्^०, देह^०,
दैत्य^०, धातुगत^०, निर^०, पृक्कि^०,
पथन्^०, पर^०, पुरुषार्थत्वादि^०,
बहु^०, बाल^०, १बीज^०, ब्रह्महत्या-
दि^०, महत्^०, लोभादि^०, वक्त्र^०,
वात^०, १विप^०, विषमासन^०, ६स^०
सत्र^०, सर्व^०, २रुपश^०, स्मृत्यनव-
काश^०, स्वपत्न^०
+दूष-दष्टि- संसार^०
दु(सु)>प-कर- अति^०, सु^०
+दु(सु)>प-कर्मन्- कृतिसत...न्त^०
दु(सु)>प-कृत- चक्षुःप्रतिरोधक^०,
वि^०, पुरुत^०
+दुकृत-धाण- मत^०

a) न्यु.१। b) ऋ ५, ८२, ५। c) प्रास.। d) गम्. (पृ ४०२) यनि. संख्यानिर्देशः द.। e) ०र्गा इति मउ ३, १२।

दुस्-तर- महापापादि°

दुस्-तर- संसार°

दु(स्)>:-स्वप्न- संसाररात्रि°

√दुग् प्र°

दुग्ध- ४अ°

दुग्ध- २दधि°, १मधु°

दुग्ध-दोहिन्- ४अ°

दुग्ध-रस- गोरस°

दुग्धरस-घृतरस-दधि-

रस-नयनीतरसा(स-आ)घ- सु-
खसंभोज्य°दुग्घ, पा- १काम°, भक्तकाम°,
१सर्वकाम°

दुग्- इष्टकाम°, १काम°

दोह- गो°, १दुग्ध°

दोहिन्- २दुग्ध°

दुहिन्- ३दत्त°, २सुत°

+√दृ प्र°

दृत्- अग्नि°, अनन्तक°, कर्कोटक°,
गुलिक°, तक्षक°, नागक°, २पद्मक°
पर°, १पौरुष्कालिक°, महापद्म-
क°, वासुकि°, शङ्खक°, १शिख°दूर- ४अ°, अति°, आचारविद्या°,
कर्माचारविद्या°, जाति...गोत्र°,
दारापत्य...दि°, वि°, सु°

दूर-रष्टि- भूतभवि...ज्ञान°

दूर-स्थ-अधरण- भूतभवि...न°

दूर्ध्व>र्धा- नव°

दूरयत्- दूषित-, दूषिन्- √दुष्
(परि.) द.

+√दृ.>दृ-दृत्-दृश्य- आ°

१-२दृष्ट°-

दृति- √दृ (परि.) द.

√दृप् सम्°

दृप्- १काम°, चित°, निन्दा°,
प्रदान°दृष्ण- १चिद्°, चित°, दीप्°,
मनिन°, १धम्°, सम्°

+√दृष्.>दृष्- सम्°

√दृष्.>दर्शि, दिदृक्ष् भृत्°, आ°,

उदुद्°, उप°, नि°, परि°, प्र°, नम्°

+२दर्श°- आ°, दुर्°

+दर्शक- महेंद्रजाल°

रदर्शन- ४अ°, अद्वैतात्मन्°, अने-

कादसुत°, भृत्°, अनुवृत्ति°,

अन्तर्लक्ष्य°, अन्त्यज°, अभेद°,

अमल°, अवकाश°, अष्टाङ्ग°,

आचार°, आत्मन्°, आन-द°,

उत्सव°, उपसंहार°, कनकरूचक°,

कार्य°, घटमठाकारा°, चन्द्र°,

जगद्वैचित्र्य°, जराम...म्य°, जा-

बाल°, तत्तल्लक्ष्य°, तत्त्व°, तत्त्व-

ज्ञानार्थ°, तद्°, तद्दर्शस्थसत्त्व°,

तद्गति°, तद्गुण°, तल्लीला°, तल्लोक°,

दूर°, दृष्°, दृश्य°, देवता°, देवो-

त्सव°, देहान्तर°, दोष°, द्रव्य°,

द्रष्टृ°, नाना°, नासाप्त°, नि°, नि-

र्मीलित°, निर्वाण°, प्रत्यक्ष°,

प्रारब्धसं...र्म्य°, प्रिय°, २फल°,

बाध°, विम्बप्रतिविम्ब°, १ब्रह्मन्°

भग्मन्°, भस्मरुद्राक्षरण°, भूत्°

भूयत्°, भ्रान्ति°, महालीला°,

महायनवि...ला°, मिथ्या°, युक्ति°

रज्जुसर्प°, २रमखानन्द°, रुद्राक्ष°

लोक°, विनाश°, शूधिक°, व्यक्त°,

शरीराभास°, श्रीराम...प°, श्रीशै-

ल°, सत्त्व°, सदान...प°, सद्यत्°,

सम्°, १सम्°, सर्वार्थ°, सिद्ध°,

सु°, सूर्यव...त्त°, स्फटिकलोहि-

त°, स्वप्न°, स्वलोक°, स्वात्मन्°

दर्सनीय- ४अ°

दर्सयद्- उप°

दर्शित- सुद्°, द्र°

+दर्शिन्- एकात्मन्°, तत्त्व°, तद्°,

१देव°, पार°, १भय°, यथाभूतार्थ°

यथावस्तु°, विरोध°, शरीरनाश°

१सम्°, सूक्ष्म°

+दर्शिवस्- तत्त्व° :

+दिदृ(क्षु)>क्षा- सार°

दृष्- ४अ°, अक्षि°, आत्ममात्र°,

इदम्>ई°, जडाजड°, तमस°,

तद्>ता°, त्रि°, १त्वा°, नासाप्त°

प्रतिबन्ध°, १मा°, यद्>या°,

वामेतर°, शत्रुभिन्नसामान°, शा-

स्त्र°, संविद्°, सम्°, १सम्°, सर्व°,

सहस्र°, सुवद्°, स्वप्न°, स्वद्°,

हेयादेय°

+दृग्-वायु-चलना(न-अ)-

भाव- अल्पमूत्रपुरीष°

+दृश- अन्य>न्या°, इदम्>ई°,

तद्>ता°, भगवत्°, भवा

(<१भवत्-), यद्>या°, ५त°

दृशि->+दृशि-रूप-वस्तु- नि-

स्तुल°

+दृश्य सम्°

दृश्य- ४अ°, अक्षिदृष्°, अन्यो-

न्य°, अशेष°, चित°, चित्तान्तर°,

तद्°, दृष्°, दृष्टृ°, १मनत्°,

सर्व°, स्वप्नकृचित°

दृश्यमान- ४अ°

दृष्ट- ४अ°, परि°, पूर्व°, प्रमाण°,

विधि°, स्वप्न°

+दृष्ट-गोचर-, दृष्ट-पूर्व-, +दृष्ट-

याद्या(द्य-आ)मन्- ४अ°

+दृष्टा(ष्ट-अ)क.(कै)-क.(कै)म्

पारा १७.

दृष्टा(ष्ट-अ)त्त्व- तर्क°, प्रतिज्ञा°,

सु°, १हेतु°

+दृष्टान्त-हेतु- मिथ्या°

दृष्टि- ४अ°, अखिल°, अनात्मन्°,

अन्तर°, अतर्कवित्°, अमा°, अ-

भृत्°, आन्तर°, उभयैक्य°, एक°,

एकतर°, १काम°, २कृ°, कृत°,

१कृपा°, १चल°, १ज्ञान°, त्रय°,

d) भावे कर्मणि वा दृत् । b) गृह्. (४४०५) यनि. संख्यानिर्देशः द. । c) भावे कर्मणि वा दृत् । d) भावे कर्मणि वा दृत् । e) कर्मणि कर्मणि वा दृत् । f) गृह्. (४४०७) यनि. शोधः द. ।

तथा°, तद्°, तादृशलीला°, तिये-
गूर्यमधन°, दुर्°, दर°, दोष°,
नासात्म°, परमात्मन्°, परमार्थ°,
पराच्°, प्रत्यच्°, चर्हिस्°, बाह्य°,
१मद्वन्°, मर्माविद्°, भेद°, धूम-
ध्य°, वस्तु°, व्यावहारिक°, शास्त्र°
शुद्धात्मन्°, संसार°, संकल्पन°,
२सांख्य°, हर्षार्थम्...स्य°, हीन-
म...ष्ट°

दृष्टि-गो-चर- २दर्शन°

+दृष्टय(ष्टि-श्र)गृन्- स्व°

दृष्ट्वा ४अ°

दृष्टव्य- अनु°

दृष्ट- ४अ°, अग्न्य°, उदुद्°, उप°,
तद्°, सर्व°

✓दृश्> १दृढ- ४अ°, आसन°, सु°

दाढ्यं- सद्भावभावना°

+दृढ-कारिन्- तद्वर्त्म°

+दृढ-कौपीन- काठिन्य°

दृढ-भावना- नासायदर्शन°

दृढ-भक्त- पाशच्छेद°

दृढा(द-अ)ङ्ग- अल्पमूत्रपुरी°

दृढा(द-अ)भ्यास- एकतरव°, प्रा-
णायाम°

+दृढा(द-श्र)सक्त- अन्यधर्म°

✓दृ, > दारि वि°

+दारुण- चार°, सु°

+दार्थ°, दृष्टि- वि°

देवना-, देवप्रस्थ-, *देवया-, देव-
हार- ✓दिव् (*षथा.) परि. द.

देशयत्-, देशिन्-, देश्य-, देष्टव्य-,
देष्टुम्-, देष्ट- ✓दिश्(परि.)द.

देश्य- ✓दिह्(परि.)द.

✓द्वे> दा(शोधने), > दात- अव°

✓द्वे> दा(अवखण्डने) अनुसम्°,
अव°, वि°

+पद- १अङ्ग°, १वर°

+द्वान- वि°

+द्वित- अनुसम्°

द्विति- ४अ°

+द्वैतेय- १देव°

द्वैत्य- दुष्ट°, मधुकै...म्भ°

दोस्(>र)-> +दोर-दण्ड- प्रचण्ड-
दण्ड°, शरभसा...व°

+दोर-युग्म- प्राञ्जलीहृत°

दोहिन्- ✓दुह्(परि.)द.

दोरात्म्य- दुरात्मन्- (परि.)द.

दोयंत्य- दुर्बल- (परि.)द.

दोर्मनस्य- दुर्मनस्- (परि.)द.

✓दुन्, > घोति भा°, प्र°, वि°

+दुन्, +दु(त>)ग- वि°

दुति- अपरिमित°, अमित°, दीप्ता-
नलार्क°, १नील°, परम°, प्रति-

विम्बसम°, वन्धूकसुष्य°, महन्°,

मुख°, सूर्यकोटि°

+घोत- २श्व°, प्र°, वि°

घोतमान- कालानलसम°, प्र°, वि°

+घोतयितव्य- वि°

घोतित- आ°, तत्पर्यायम्...णि°,

प्र°, मणि°

घुच्- इन्द्र°, घृष्ट°, भूरि°, घु°

घृष्य- गन्ध°, गोमय°, दृश्°, १देव°,

पर°, योगाङ्ग°, स्नान°

+✓द्व्रा नि°, प्र°

+द्व- इदम्°

+द्व्रा- नि°, हरि°

+द्व्राण- प्र°

✓दु अनु°, अप°, अभि°, आ°, उप°,

प्र°, वि°, संप्र°

द्व- उप°, शुद्धश्लेष्मन्°

+द्ववण- आ°

+दु- मित°

दुत-> +दुत-द्वेमन्- मृपास्थ°

+दुत्य- अमि°

दु-> +दु-म- ४कल्प°, तट°, महन्°,

विद्रुम्°, २धुर°

+दुम-वर्न- मयुरावन°

✓द्वह् > +दुह- ४मित्र°

द्वेहि- ४अ°, जरा°, ४मित्र°

द्वोहिन्- ४अ°

+✓द्वेश्(=✓दृश्)>द्वेश्य- ४अ°

द्वेष्टोण- भीष्म°

द्वार- अदृष्ट°, कर्तृत्व...ति°, प्राण°,
चतुस्र°, जिह्वा, १श्वच्°, नामरूप°

मृत्यु°, धोत्र°, सर्वपापविनाश°

द्वार- अभि°, अधस्°, अल्प°, ईशान°,
ऊर्ध्व°, एकादशन्°, कर्णाग्निना-

सापुष्ट°, २कु°, २कुबेर°, कृत°,
गन्ध°, गृह°, गोपुर°, चतुर्°,
जन्मन्°, तत्कथा°, तत्प्रकाशित°,
तद्°, तमस्°, दशन्°, दशम°,
द्वादशन्°, नवन्°, नाडी°, निर्ऋति°

पर°, पश्चिम°, पाताल°, पूर्व°,
१मद्वन्°, १मभ्यम्°, १मनस्°,
महन्°, सुख्य°, मृध°, १मोक्ष°,
१यम्°, योनि°, लोक°, वदन°,
१वरुण°, वायु°, सप्तान°, सप्तम°

सर्व°, सिद्धि°, सुपुत्रा°, सुदम्°,
१सूर्य°, स्वर्ग°, १हृद्°

+द्वार-भित्ति- तद्°

द्वि- अनुदात्त°, सोमसूर्य°

द्वन्द्व- ४अ°, कटि°, १जित°, नष्ट°,
निर्°, नेत्र°, परिणतली°, प्रादाम्भो-

रुह°, आभाभावादि°, सर्व°, हन्°

द्वय- ४अ°, अंस°, अंसक°, अचर°,
अदृष्टुष्ट°, अनुष्टुम्°, अमृतबीज°,
अयन्°, अयुत°, अर्थ°, ऊर्ध्व°, ऋ-

तु°, १कर्ण°, कार्य°, २काल°, १कु-

रडल°, २कुरु°, १कूर्च°, सूच्यबीज°

कूल°, १कोटि°, कोदण्ड°, कोश°,
खण्ड°, गवाक्षक°, १गुह्य°, गृह°,
२चरण°, जङ्घा°, ३जय°, जानु°,
तद्°, १तार°, ४तार°, दरड°,
दिन°, दोष°, नर°, नामन्°,
निर्°, नेत्र°, पक्ष°, पट°, ४पट°,
पद°, १पद्म°, २पल°, प्राणि°, पा-

द°, पादतल°, १पार्श्व°, २पार्श्व°,
पीतवर्ण°, पुट°, बाहु°, विन्दु°

भुज^०, भुवनेरी^०, भूमिका^०, मन्त्र^०
 मानयष्टि^०, माया^०, मार्ग^०, मास^०,
 मुक्तायु^०... ली^०, १युहूर्त^०, मूलमन्त्र^०
 रन्त्र^०, १वर्ष^०, राक्षि^०, राक्षिका^०,
 शरीर^०, शाटी^०, श्रीमद्^०, धोत्र^०,
 सत्कवाट^०, १सन्ध्या^०, संबोधन^०,
 सूतक^०, स्वाहापद^०, हन^०, १हेतु^०
 + द्वय-कर- शुभ्राभा... म^०
 द्वा-त्रिंशत्- पोडरान^०
 १द्वात्रिंशद्-अक्षर- इत्यादि^०
 द्वात्रिंशदक्षरा(र-अ)न्त-
 दराराक्षरादि^०
 द्वा-दशन्->द्वादश->द्वादशी-
 शी तु १०१^०. [०न्-चतुर्^०,
 मात्रा^०]
 द्वादश-क- दिन^०, ध्यान^०
 द्वादशक-स्थान- ने ऊ
 ६४ : ९.
 +द्वादश-नामन्- केरावादि^०
 द्वादश-न(ल>)ला^०
 +द्वादश-भास- माघादि^०
 +द्वादश-वन- १आदि^०
 द्वादश-श्रेणि- धीरासिकशिरो-
 मणि^०
 +द्वादश-स्थल- ललाटादि^०
 +द्वादश-स्थान- अवशिष्ट^०
 २द्वादशा(श-अ)क्षर- राम^०,
 वासुदेव^०
 द्वादशाक्षर-मन्त्र- नारायण-
 वासुदेव^०, महाविष्णुरामकृष्ण^०
 +द्वादशा(श-अ)क्षर- अष्ट-
 वसु^०
 द्वि-ज- १देव^०, मृग^०
 द्वि-तय- र्वान्दुमएल^०, समाधि^०
 द्वि-ता-> १द्वैत- ४अ^०, विप्रातीय^०
 +द्वैत-विमोक्ष- गलित^०

द्वि-तीय--यः तु ७१^०; -याद्य अशि
 ५, ३१^०. [०व- ४अ^०, प्रथम^०,
 स्वस्वेतर^०]
 + १द्वितीय(क)- ४अ^०, २वेद^०
 २द्वितीय-क-
 +द्वि-त्व- अस्तमित^०
 द्वि-धा-> +द्वैध- छिन्न^०
 +द्विधा-त्रिधा-शान्ति- न्तिः
 च २१ : १७^०.
 +द्वि-प- गन्ध^०
 द्वि-रात्र- एकात्र^०
 +द्वि-आवृत्ति- पदद्वय^०
 १द्वि-वर्ण-> द्विवर्ण-मा(१मि-
 [त>])ता^०-
 द्वि-विध-> द्वैविध्य- अन्योन्य...
 क^०, प्रकृतिपुरुष^०
 +द्वि-पट्क- प्रत्याहार^०, प्राणायान^०
 +द्वि-ससक- सर्वसंज्ञाभिरयादि^०
 द्वीप- १जम्बू^०, नवरत्न^०, रत्न^०, २धे-
 त^०, सप्तन्^०
 +द्वीप-समुद्र- सप्तन्^०
 +द्वीपा(प-अ)वन->द्वैपायन^०-
 ३कृष्ण^०
 +द्वय(द्वि-अ)शुक- अप^०, आकाश^०,
 तेजस्^०, पृथिव्याते... श^०, पृथ्वी^०,
 वायु^०
 +द्वय(द्वि-अ)र्ष- अति^०
 +द्वय(द्वि-अ)हन्-> द्वाहिक->
 द्वाहिक-अवर^०- अतिमयंकर-
 ज्वर^०
 √द्विप् प्र^०, वि^०
 द्विप्- इन्द्रिय^०, भ्रूण^०, प्रत्यक्ष^०,
 १महान्^०
 द्विपत्- प्र^०
 द्वेप- इच्छा^०, १काम^०, त्रिपुरहो-
 कूलन^०, निन्दा^०, पृथिवी^०,

१राग^०, वि^०
 +१द्वेषण^०, +२द्वेषण^०, +द्वेषिन्-
 वि^०
 +द्वेषृ- ४अ^०
 द्वेष्य- सुहृद्^०
 द्वैपायन^०- द्वि- (परि.) द.

ध

१ध^०
 २ध- √धा (परि.) द.
 १धन^०- एक^०, कलात्र^०, तपस्^०, देव-
 शुभादि^०, निद्र^०, न्यायाजित^०, पर^०
 पशु^०, महत्^०, विद्या^०
 धन-२^०- शक्त^०
 +धन-धान्य-ससुत्र-कलत्र-हय-
 भू-गज-पशु-महिषी-दासी-
 दास-योग-ज्ञान- सकल^०
 धनिक- निद्र^०
 +धने(न-ए)पणा- दौषणा^०
 धन्य- ४अ^०
 २धन- √धा (परि.) द.
 ३धनेन-जय- २नाग^०, प्राण^०
 धनुस्- इक्षु^०, पाश^०, मणि^०, ६स^०
 धनुर्-धर- महत्^०
 +धनुस्-शूलक- ६स^०
 धन्वन- अति^०, सु^०
 +धन्विन्- ऋन्ने वप् १, १^०.
 धमनिका- √ष्मा (परि.) द.
 +धमिष्^०- पुष्पदामयुक्त^०
 १धरण- √घ (परि.) द.
 २धरण- √घ (<>ह) परि. द.
 १-२धरा- √घ (परि.) द.
 घर्तुम् √घ (<>ह) परि. द.
 १धर्तु- √घ (परि.) द.
 २धर्तु- √घ (<>ह) परि. द.

a) ० श इति पा. १ यनि. शोषः द. । b) गृह्. (४ ४१२) पदद्वयात्मकः शोषः द. । c) पा. ३ स्त्रीत्वपरः शोषः द. । d) तैत्ति १, ८, ९, १ । e) गृह्. (४ ४१५) यनि. संख्यानिर्देशः द. । f) गृह्. (४ ४१६) द्विधा- इत्यत्र यनि. शोषः द. । g) गृह्. (४ ४१६) 'द्विवर्णमात्र' इत्यत्र यनि. शोषः द. । h) भावे कृत् । i) कर्त्तरि कृत् । j) गृह्. (४ ४१७) यनि. संख्यानिर्देशः द. । k) गृह्. (४ ४१८) 'धन्वन्-> न्वने' इत्यत्र यनि. शोषः द. । l) म्यु. १ ।

घर्ष- √घृष् (परि.) द.
 १ धवल- कुन्देदु°, गोक्षीर°
 घवली°/कृ(फरणे) > घवली-कृत-
 महाश्रास°
 घस्- नाड- द.
 √घा (*वधा) > घापि, घातु मउ २०,
 ३५°; घेहि मैत्रि द, ३५° ५°.
 [अपि वि°, अन्°, अनुवि°, अनु-
 सम्°, अन्तर्°, अपि°, कर्मि°,
 अभिनि°, अभिसम्°, अभ्या°,
 अव°, आ°, उप°, उपनि°, उपस-
 मा°, उपा°, तिरस्°, नि°, परि°,
 पि°, पुरस्°, प्र°, प्रणि°, प्रति°,
 प्रतिवि°, प्रत्या°, वि°, विनि°,
 व्यव°, व्या°, भ्रष्°, संनि°, सम्°,
 समभि°, समा°]
 +*दघ- आ°
 दघत्- अनुसम्°, वि°, भ्रष्°
 +*दघावृ- आ°
 दघान- आ°, भ्रष्°, सम्°, समा°
 १ दधि-> दधि-वामन- लक्ष्मीना-
 रायण°
 २ दधि- २दुग्ध° पुण्य°, १ मधु°
 +*दधि-नस- गौरस°, दुग्धसत्°
 दधि-वन- मधुरावन°
 +*दिघ- आ°
 +*दघ- अभिसम्°, सम्°
 +*दघन- नि°
 +*घस- पुरस्°
 +*घा- अद्°, अभि°, क्षुत्°, रत्न°,
 वसु°, भ्रष्°, सर्व°
 +*घातव्य- आ°
 घातु- बन्ध°, वि°, १त्क्व°, पर्वत°,
 प्रत्यष्°, रत्न°, सत्त्वात्°, सर्व°
 घातु-मय- निरस्त°
 +*घातुम् समा°
 घावृ- इन्दु°, जगत°, वि°, सम्°

१ धान, नी°- अनुसम्°, अन्तर्°, अभि°
 अभिसम्°, अभ्या°, आ°, क्षुत्°,
 तिरस्°, १धन°, नि°, परि°, प्र°,
 प्रणि°, प्रत्या°, यातु°, राजन्°,
 वक्षु°, वि°, व्यव°, संनि°, सम्°,
 समा°, हविस्°
 २ धान > ना°- वट°
 धान्य- १धन°, पशु°, विद्या°,
 सर्व°
 +*धापयिस्वा नि°
 धामन्- -मनि मना १, ४५° [न्-
 त्रि°, निष्कन्°, परम°, परि°,
 १त्रयन्°, रत्न°, वागीश्वरी°, १वि-
 र्व°, सत्त्वात्°, स्व°]
 +*धाय अपि वि°, अनुसम्°, अन्तर्°,
 अपि°, अभि°, अभिसम्°, अव°,
 आ°, उपनि°, उपसमा°, नि°,
 परि°, पुरस्°, प्रणि°, वि°, संनि°,
 सम्°, समा°
 +*धापस- १विरव°
 +*धातु- यष्°
 +*धि- अनुसम्°, अन्तर्°, अप°,
 अभिसम्°, अम्बु°, वाम्भस्°,
 अव°, आ°, इषु°, उद्°, उपा°,
 २जल°, नि°, परि°, प°, प्रतिवि°,
 वाद्°, वि°, व्या°, शेष°, संनि°,
 सम्°, समा°
 +*धित- सु°
 +*धु-, +*धुस्- सम्°
 +*धेय- अनुसम्°, आ°, वि°
 १ हित- अन्तर्°, अपि°, अभि°,
 अभिनि°, अभ्या°, अव°, आ°,
 उप°, उपनि°, उपसमा°, १गृहा°,
 तिरस्°, १देव°, नि°, पि°, पुरस्°,
 प्रतिवि°, वि°, विनि°, व्या°, ऽस°,
 संनि°, सम्°, समभि°, समा°
 +*धामक- हरि°

१ धार-
 धारा- अमृत°, अमृतमधु°, अति°,
 धिषक°, २जल°, तैत्ति°, धर्मासूत°
 निश्चित°, मात्रा°, योगनिर्मल°,
 ४रक्त°, शत°, सर्प°, सहस्र°
 +*धारा-गृह-शीकर-वर्षण- नि-
 दापविनेद°
 २ धार- √धृ (परि.) द.
 ३ धार- √धृ (<>ह) परि. द.
 धारक-, धारय-, धारयितव्य-, धा-
 रिन्°, धार्य √धृ (परि.) द.
 √धाक् (मत्तौ), धावति वृष् २, १४ ५^b.
 [अनु°, अनुवि°, अभि°, उप°,
 परि°, प्र°, प्रति°, वि°
 धावत्- उप°
 १ धावन-
 √धाव (शुद्धौ) निद्°
 +*२धावन- पाद्°, दन्त°
 धौत- निद्°
 धीर- धर्म°, सर्वतत्°, सुखदुःखदशा°,
 स्वयम्°
 धैर्य- १मनस्°
 √धु व्या°
 धुर- धुरम्°, सु°
 धुर-धर- रामकार्य°
 धुर- ४अ°, वि°
 √धू (*वधा.) अव°, उद्°, निद्°, वि°,
 विनिद्°
 +*धव- ६मा°, वि°
 धूत- अव°, उद्°, निद्°, वि°
 +*धय वि°, विनिद्°
 +*धूप > धूप- गन्ध°, गन्धसार°,
 पुष्प°, वल°
 धूप-दीप- अमन्त°
 धूपित- आपानोद्धार°
 धूम- ४अ°, गो°, नीहार°, रजस्°, वि°,
 शिवाभि°, ६स°

a) ऋ ६, ४५, ११। b) 'देहि' इति तैत्ति ७, ५, २४, १। c) भावे कर्तार वा कृत। d) भावेऽधिकरणे कर्तार वा कृत। e) गम्. (५४२०) यनि. संख्यानिर्देशः द.। f) 'धोने' इति शौ २, १, ५ (तु. टि. वेर १ यथा.)। g) व्यु. ?। h) तैत्ति ८, ८, १। i) धा. प्रीणते इतिः। j) धा. कम्पते इतिः।

*धूम-(क)- ४अ°
 धूम- सु°, स्फटिक°, रहरित°°
 *धूम-लोचन- २मपु°°
 *धूमलोचन-वध- हेलो-
 निर्मित°
 धूय √धृ (वधा) परि. द्र.
 *धूर्जटि- चन्द्र°°
 *धूर्लि- उद्°
 √धृ.> धारि अनु°, अभि°, अव°,
 आ°, उद्°, उप°, निर्°, प्र°,
 प्रोद्°, वि°, सम्°
 धर- अक्षस्त्राङ्कुशा°, अमव-
 कदपत्र°, अम्मसु°, अष्टमहाः ३.
 ३°, अश्वनि... ३°, आशाम्बर°,
 एकदण्ड°, एकराटी°, किरात-
 रूप°, किराटकुण्डल°, कौपीन-
 कन्या°, कौपीनशा... न्या°, गङ्गा°,
 गजरूप°, गदा... ३°, गोवर्धन°,
 प्रवेय... ल°, १चक्र°, चतुर्भूति°,
 चापबाण°, जटा°, जटाजूट°,
 जलम्°, १जातरूप°, जालम्°
 त्रिभुवनधरा°, दण्ड°, दण्ड-
 कमण्डलु°, दुर्°, दिव्याम्... र°,
 दिव्याम्बर°, धनुर्बाण°, धनुस्°,
 धरणी°, धुम्°, १नानारूप°,
 १नानावर्ण°, १नानाशक्ति°, पयस्°
 पाराङ्कुशा°, पाराङ्कुशाधनुर्बा-
 ण°, शृङ्गी°, १भू°, मूर्ति°,
 यथाजातरूप°, ४रसा°, विद्या°,
 विराजत्करकमल°, १विरवरूप°,
 वेलुभूत°, व्याघ्रधर्माम्बर°, प्रत°,
 शङ्खचक्र°, शङ्खचक्रगदा°, शङ्ख-
 चक्रगदाप... ला°, शशिशक्र°,
 शिखादिबन्धा°, शिवलिङ्ग°, शि-
 वमत°, शिवाय्यु... भू°, शुभ्रवस्त्र°,
 श्यामवपुम्°, श्री°, सवोपुध°,
 गर्भसोदियुति°

१धरा- त्रिभुवन°, वसुम्°
 *१धरण- जगत्°, वि°
 धर(णि)> गी°- चतुरस्र°, १तार°
 १धर्तृ- वि°
 धर्म- ४अ°, अनन्य°, अन्तःकरण°,
 अन्य°, अरण्य°, अहंकार°, आ-
 त्मन्°, आश्रम°, आहाराचार°,
 उदर°, १कथा°, कर्मन्°, २काल°,
 २कुल°, २कुल°, कैवल्य°, गूढ°,
 गृह°, गृहादि°, २पट°, चातुर्वर्ण्य°
 चित°, जडत्व... त्व°, जरा°,°
 जायतस्व... ण°, २जाति°, जाति-
 कुल°, तद्°, तमसं°, तीर्थ°,°
 त्रयी°, १दान°, देह°, नारीक°,
 निज°, पर°, परस्परविहृद्°,
 पृथक्°, प्रसव°, १मनस्°, १मोक्ष°
 यत्किञ्चिद्°, लंघ्यादि°, वर्षादि°,
 वर्षाश्रम°, वर्षाश्रमोचित°, व-
 रतु°, वानप्रस्थं°, वि°, विरह°,
 वृक्ष°, वैष्णव°, प्रत°, शरीरो-
 पाधि°, शान्तोदि... र्य°, शास्वत°,
 १शिव°, शैव°, ५सं°, १सत्य°,
 संन्यास°, २सनान°, सर्व°, साध्य°
 सिद्ध°, स्थानिन्°, स्व°, स्वकृत°,
 स्ववर्णाश्रम°, हिसक°
 धार्मिक- ४अ°
 *धर्म-(क)- निर्°
 धर्म-कर्मन्- वर्षाश्रम°
 *धर्मकर्म-रहित-केवल-
 मनस्- नसा सार २३०:३?।
 धर्म-विहित-त्वा: २कोल ४?।
 धर्म-शास्त्र-आगम°°, २पुराण°°
 धर्म-नीति- ४अ°
 *धर्म-माहित्य- नियत°
 धर्मा(र्म-प्र)धर्म- वैदोक्त°, संरा-
 जमान°

धर्मिन्- र्मी ससा १, २२?।
 [न्- धर्म°]
 धर्मन्- अनुच्छिन्ति°, १चित्°, वि°,
 संसार°, संचार°
 *२धार- अव°, आ°, १कर्ण°,
 जटाभस्मन्°
 *धारक- अग्निप्रत°, अविद्या°
 १धारण- गपू. पृ४२४ द्र.
 २धारण- अन्तर्°, अग्नि°, अव°,
 आकाश°, आहरण°, गोपीचन्दन°
 जडत्व°, तद्°, तद्गन्धम्°, तिर्य-
 क्त्रिपुरगुह्यङ्क°, त्रिपुरगुह्य°, दण्ड°,
 धार्य°, नासांभ°, निर्°, पद्ममूर्ति°,
 पादाङ्गुष्ठ°, प्राण°, बहिलि... वीत°
 बाष्पाकाश°, बिन्दु°, भस्मत्रि-
 पुण्ड्र°, भस्मन्°, भूल°, १मनस्°,
 मायाविग्रह°, यथेष्ट°, रुद्राक्ष°,
 लिङ्ग°, वायु°, वि°, विभूति°, प्रत°,
 शङ्खच... दि°, शिखोपवीत°, सम्°,
 सुख°
 ३धार(ण)> गा- अव°, अवकाश°,
 इन्द्रिय°, देह°, ध्यान°, निरचली-
 भाव°, प्राणायाम°, २यम°,°
 २योग°, १धुति°°
 *धारय- अंशु°
 धारयत्- अनु°, अंश°
 *धारयितव्य- वि°
 धारित- अन्तर्बहिर्°
 *धारिन्, गी- अङ्कुशा°, अनेक-
 विहारदेह°, असिकपटक°, एककौ-
 पीन° १धमल°, केटा°, केशकज-
 ल°, कौपीन... रड°, जटा°,
 विदण्डकमण्डलुशिवयव°, त्रि-
 दण्डकमण्डलुशिरा... वस्त्र°,
 त्रिपुरगुह्य°, त्रिपुरगुह्यवपुण्ड्र°, त्रि-
 शूल°, धनुर्बाण°, घृतचक्र°,

a) धृ.। b) कर्त्तार कर्मणि वा कृ.। c) भावे कर्त्तारि वा कृ.। d) घरा. द्र.। = भूमि- , अकारापीनात्पर-।
 o) गृ. (१४२१) यनि. संस्कानिर्देशः द.। f) घृ. गृ. १०.५६त। g) षष्प° इति पा.। यनि. शोचः द. (द्र.
 १४१न ३:५)। h) र्मी° इति निपा.। यनि. शोचः द. (एतदनु गृ. १४२४b) 'धर्मिभूत-> नम्' इति शोचः
 गुणरितः द.। i) गृ. (१४२४) यनि. संस्कानिर्देशः द.।

मानास्रश्च°, पारापुस्तक°, पुस्त-
काक्षमाला°, प्राण°, ब्रह्माण्डभा-
...प°, भस्मन्°, २भुवन°, महा-
सुरडमाला°, यज्ञोपवीत°, लिङ्ग°,
लोक°, सोलजुण्डल°, १भिरव°,
श्रुतिव्यतति°, शङ्खचक्रगदापद्म°,
स्वेतोर्व्वेपुरङ्ग°, सोमार्ध°
+घार्थं अव°
घार्थं- देवता°, शिरस्°, सम्°
+घत्- १विध°
१घत्- अव°, अवनि°, करकमल°,
त्रिपुरङ्ग°, पराग°, वि°, शुभाभ्रा-
भे...र°, सर्वसाक्षिन्°
१घति- ४अ°, अम्बराण्ठ°, अहि-
सा°, लक्ष्मी°, वि°, विवस्वत्°,
१सत्य°
√घृ<> उद्°, समुद्°
+२धरण-, +धर्तुम् उद्°
+२धर्तु- समुद्°
+३धार-, +२घत्- उद्°
+२घ्य उद्°, समुद्°
√घृप्> +घर्ष- दुर्ग°, दुरा°
+घृप्- ब्रह्मरूप°, १सर्वराक्षि°
√घे अतु°
घेनु- ४अ°, १काम°, घृत्°, तिल°,
दशन°
घेय- √धा परि. द्र.
+घैवत्^{१०}- पञ्च°
√घमा, > घम् आ°, प्र°, सम्°
घमनि^{११}- > +घमनि-क> का^{१२}-
१पार्व°
+घम- १शङ्ख°
+घमात्- आ°
घमाय- आ°, प्र°
√घ्यै> घ्या, धी, घ्यायि, दिघ्यास्, धी-
महि मउ ३, ६; १०; ११; १२;
१४; १८; त्रिता ३, १५. [अतु°, अ-
न्तर्°, अभि°, आ, नि°, प्र°, सम्°]
+दिघ्यास-, +दिघ्यासन-, +दि-

घ्यासितस्य- नि°
१धी- अक्षर°, अनन्य°, १अहम्°,
उदम्°, एक°, देहादि°, धीर°,
पदार्थ°, पूर्ण°, प्रपूर्ण°, प्रशान्त°,
ब्रह्मकर्मोक्त°, १व्रतन्°, ब्रह्माव-
लोकन°, महत्°, मूढ°, मौलिरथ-
...ण°, २योग°, शान्त°, शुद्ध°,
सर्व°, सु°, सुदुःख°, स्थित°, स्वप्न°
+धी-वृत्ति- तर्क°
+घ्या- अभि°
घ्यात्- अतु°
घ्यातस्य-, घ्यात्-, घ्यात्वा अभि°
घ्यान- अकार°, अभि°, अवासन-
मनस्°, अस्वलित...प°, आ°,
आत्मन्°, आनन्द°, एकान्त°,
श्रुति°, श्रुत्यादि°, कृत°, २कृ-
...ण°, जप°, १ज्ञान°, तत्त्वरूप°,
तद्°, त-मन्त्र°, तेजस्°, देवान्तर-
र°, घ्यात्°, निरंश°, निर्गुण°,
न्यास°, परमात्मन्°, परिपूर्ण°,
पादाम्बुज°, प्रणवहंसान्तर°,
प्रणवैक°, प्राणायाम°, बहुविध°
१चोज°, १व्रतन्°, भगवत्°,
मकारमूर्ति°, मनन°, १मनस्°,
महत्°, मूर्ति°, यथाभिमत्°, यथा-
भिवान्छित°, यद्°, २यम°,
२योग°, रतिर...द°, रासादिली-
ला°, विद्या°, विराज्°, २व्रज°,
२शुक्र°, श्रद्धा°, २श्रवण°, धी-
राधा°, १श्रुति°, सगुण°, सर्व°,
स्नान°, स्नान°, १स्वरूप°, स्वरू-
पातुसंभान°, स्वाध्याय°, स्वान्त-
र्वि...ल°, हंसार्कप्रणव°
+घ्यात-कथा-सेवा- शिष्टा...ष्ट°
+घ्यान-कीर्तन- १रति°
+घ्यान-विन्दु^{१३}- कठवल्ली°
घ्यान-योग- महत्°, सुपुत्रा°
+घ्यान-योग-ज्ञान- सर्व°

+घ्यान-लेखा- सुपुत्रा°
+घ्याना(न-श्च)नुसंधान- ब्रह्म-
प्रणव°
घ्यायत्- अतु°, अभि°
घ्यायमान- अन्तर्°, अभि°
घ्यायितस्य- प्र°
घ्यायिन्- अभि°, १सत्°
घ्येय- अभि°, ध्यान°, २योगिन्°
१धुव- ४अ°
२धुव- गप, पृ४२८ द्र.
३धुव^{१४}- धात्°
४धुव-> +धुव-तारक- विन्दु°°
५-६धुव- गप, पृ४२८ द्र.
√ध्वंस् अप°, प्र°, वि°
ध्वंस- १वन्ध°
ध्वंसन- प्र°
+ध्वंसमान- वि°
+ध्वंसिन्- प्र°, शुग्भ°
ध्वस्त- अप°, प्रत्यग्ज्ञानशिल्पिन्°,
वि°, विद्या°
+ध्वस्ति- अन्ताराय°
√ध्वज> ध्वज^{१५}- इच्छाकुर्वंश°, कद-
ल्यर्ष°, १कपि°, कौस्तुभ°, चन्द्र°
छत्र°, पताका°, महत्°, मूषक°,
वादित्र°, विमान°, वृष°, वृषभ°
+ध्वजा(ज-श्च)तपश्च- दिव्य°
√ध्वन् अप°
ध्वनि- २अनाहत°, १ओंकर°, तत-
जन्तु°, प्रणवात्मक°, प्रणवादि-
मन्द्रमध्यमतार°, मन्द्रमध्यमता-
लज°, मर्दल°, महाभैरवादिंक°,
मेघ°, १शङ्ख°, शब्द°
+१ध्वान्त- अप°
+ध्वान्त^{१६}- धूम°°
२ध्वान्त^{१७}-

न
१-४न गप, पृ४२९ द्र.

a) भाप. वा नाप. वा । b) व्यु. ? = संगीतस्वरविशेष- । c) भाप. नोपनिषद्विशेष- वा । d) = तदाख्योपनिषद्-
विशेष- । e) व्यु. ? = १काक- । f) गप. (पृ ४२८) यनि. संख्यानिर्देशः द्र. ।

५५- मउ ९, ४५^०.

न-पुनर-भव- -वाय जावा १९.

ना(न-अ)स्ति नारित^०

नास्तिक->नास्तिक्य- ४अ^०

नः^० गोप् १^०.

नक्त- -क्तम् नाप १५४: ३^०. [०क-
दिवा^०]

नक्षत्र- -प्राणि छां ८, १, ३. [०त्र-
२ग्रह^०, चन्द्र^०, दीपज्वाला^०,
२पुण्य^०, १सूर्य^०, स्फटिक^०]

नख^०- -श्लक्ष्ण, कगाल^०, २कुं, केस^०
१त्वच^०, दशन^०, पृष्ठवंश^०, प्र^०,
मध्यम^०, १वज्र^०

नखा(ख-अ)प्र- आ^०

नगर, री- अयोध्या^०, इन्द्र^०, गान्धर्व^०,
२विदेह^०

नग्न- ४अ^०

नृचि-केत->नाचिकेत- त्रि^०

√नट्->नट- चाट^०

+नट-वेष- धातुप्रवाल^०

+नाट्य- नट^०

√नद्(वधा.)->नादि वि^०, प्रति^०,
वि^०, व्यनु^०

नद- -नि^०, सरित^०

नदी- अमृत^०, अमृतकह्लोल^०,
धृतैल^०, महत्^०, विरजा^०, शून्या-
गार^०, १धुधा^०

+नदी-तट- शून्यागार^०

+नघ वि^०

नाद- अकार^०, अन्तःप्रणव^०, अ-
भिव्यक्त^०, अमृत^०, ओंकारव्यनि^०,
२घण्टा^०, तद्^०, तन्त्री^०, ३ताल^०,
तेजस्^०, नाना^०, नि^०, विन्दु^०, अग्नि-
तारातर^०, ब्रह्मप्रणवसंलग्न, ब्रह्म-
प्रणवसंधान^०, भेरी^०, घृदत्त^०, मेघ^०

रेफ^०, वि^०, वियत्^०, वेणु^०, १श-
ह्व^०, शह्वदुन्मुभि^०, सर्व^०, सिंह^०,
सु^०, स्फटिक^०

+नाद-(क)- ब्रह्मप्रणव^०

+नाद-कला- सर्व^०

१नाद-विन्दु^०-

+२नाद-विन्दु^०- ऐतरेय^०

+नाद-लय- सम्यच्^०

+नाद-वत्- ४अ^०

नादा(द-अ)भिष्यक्ति- लघु^०

+नादयत्- व्यनु^०

नद्ध-, नद्धि- √नह्(परि.) द्र.

√नन्द-, >न्दि अभि^०, आ^०, समा^०

१नन्द, न्दा^०- अभि^०, अलक^०, उप^०,
२शोप^०, वृषभातु^०, श्री^०, समा^०,
सु^०

+नन्द-पुर- वृषभातुपुर^०

+नन्द-वन^०- मधुरावन^०

२नन्द- गङ्गा, पृ४३२ द्र.

+३नन्द^०- ४अ^०

नन्दक- कौस्तुभ^०, १शह्व^०

+१नन्दन^०- आ^०, १कुरु^०, गौरी^०,
१ज्ञान^०, देवकी^०, नाना^०, वृष^०,
२वन^०, २खु^०, वायु^०, हृदय^०

२नन्दन^०-

+नन्दयितव्य-, +नन्दयित्- आ^०

नन्दि^०- गणेश^०, शोभ^०, स्कन्द^०

+नन्दि-सेन^०- गणेश^०

+नन्दिसेन-वाण-रावण-

२शिवानन्द^०

नन्दी(दि-ई)धर->+नन्दी-
धर-वन^०- मधुरावन^०

+नन्द्या(दि-आ)दि-गण-प-

अनन्तपरिपालक^०

+नन्दिदत्त- आ^०

नन्दिन्- चित^०

+नपात्- २वत्स^०

नपुंसक- स्त्री^०

नभस्->+नभः-क्रम- अन्तःवर...यु^०

नभो-जल- अधोगामिन्^०

√नम्, >मि अभि^०, आ^०, उद्^०,
उप^०, उपोप^०, परि^०, प्र^०, प्रोद्^०,
वि^०, सम्^०, समुद्^०

नत, ता- आ^०, उद्^०, उप^०, परि^०,
प्र^०, प्रोद्^०, वि^०, सम्^०, समुद्^०

नति^०- उद्^०, प्र^०, वर्मन्^०, सम्^०,
१हुं^०

नमत्- प्रोद्^०

+नमन-, +नममान- परि^०

+नमयत्- उद्^०

१नमस्क^०- -मः नीरु^० [०ख- उप^०]

नमस् √कृ(करणे) > नमस्-
कार-गुरु^०, ५न^०, निद्^०, प्रदक्षिण^०

नमस्-कृत- सर्वदेव^०, सर्व-
सिद्ध^०, सिद्ध^०

√नमस्य->नमस्य- -स्यम् ते
६, २४? [०स्य- सर्व^०]

नमस्यत्- सर्वदेव^०

+नमो(मस्-अ)न्त- प्रणवादि^०

नमामि अ^०, अति^०

+नमित- आलिङ्गनसुम्बन^०

+नम्य अभि^०, प्र^०

नम्र- पक्षक...व्य^०, पुष्य^०, सतत^०.

+नाम- परि^०, प्र^०

२नमस्^०-

नर- किम्^०, १देव^०, १विश्व>धा^०,
वानि^०, सकल^०

नारी- अध^०, सु^०

नर-सिंह->नारसिंह- -हः मना
१, ७. [०ह- २मत्स्य^०]

a) मा ८, ३६ । b) '२कृष्ण->ष्णः' इत्यस्योत्तरांशः । c) आन. अया. । d) अज्जाः सं. अया. ।
o) यया. द्र. । f) गपृ. (पृ ४३१) यनि. संख्यानिर्देशः द्र. । g) =तदाव्योनिपद्-विशेष- । h) यया. द्र. । =कर्तारि
इत्, व्यसं. । i) भार. । j) भावे कर्तारि वा कृर । k) गपृ. (पृ४३२) यनि. संख्यानिर्देशः द्र. । l) वृप१ यद्र. ।
m) भार. वा १नमन्- वा । n) आन. अया. । o) मन^० इति निता. ? यनि. बोधः द्र. (तु. अथ्या.) । p) तु. गपृ.
पृ४३५k । q) 'शुसिराय' इति मउ ३, १५ ।

१ नरक- महत्°

*नरका(क-श्रा)दि- पापफल°

२ नरक-> म(का(क-श्र)-न्तक- पद्मा-
न्तक°

नरा-शंस-> नाराशंस-> नारा-
शंसी- वाकोवाक्य°

+√नर्द्-> नर्द- वि°

*नलिन- तुलसी°, श्रीमद्रामण°

१ नव- अभि°

*नव-जप- विभृत्°

*नव-नीत- २दधि°, १मधु°

*नवनीत-रस- गोरस°, दुग्ध-
रस°

*नव-नूरन-नवीथस्- १किशोर°

*नवीन- धनविद्यु°

*नवीथस्- १नव°

२ नव-√नु(परि.) द्र.

नवन्- त्रि°

*नव(क)- आधार°, ६स°, सोमांश°

*नव-गुण- नवब्रह्मख्य°

नव-ग्रह- भूत°

नवति- पद्यन्°, पप°

*नव-निधि- अष्टसिद्धि°, शङ्खप°दि°

नव-ग्रहण- अष्टमहाभैरव°

नव(स->)मी- महत्°

*नव-रत्न- स्फटिक°

*नव-रत्न-निधि-कोश- हरित-
हृ°

*नव-रात्रि- १वसन्त°

१ नव-शक्ति- वामादि°

+१ नवा(व-श्र)क्षर-> *नवाक्षरा-
(र-श्र)न्त- एकाक्षरादि°

२ नवा(व-श्र)क्षर-> *नवाक्षर-
मन्त्र- दक्षिणामूर्ति°, रामकृष्ण-
हृयमीव°

+√नश(व्याप्तौ) अनुवि°, उपसम्°

√नश(अदसने), > नाशि > नाशयति
इजा ४९°. [उप°, परि°, प्र°]

प्रवि°, वि°]

नदयत्- वि°

नदवर- ४भ°, वि°

नष्ट- ४भ°, परि°, प्र°, वि°, समस्त°

*नष्टि- वि°

नादा- अन्तःकरण°, अभिकम°,

अरूप°, अविद्या°, असत्य°, आवृ-

त्ति°, उपाधि°, कर्मन्°, १कृतकर्म-

न्°, कृत्यादि°, क्रिया°, २पट°

चित्त°, चिन्ता°, तद्°, तिमिरान्ध°

देह°, दीर्घायं°, द्वय°, द्वय°, पाप-

रोग°...धि°, २पुर°, प्र°, प्रतिमा-

न°, प्रारब्ध°, प्रारब्धप्रतिभास°,

प्रियत्व°, १बन्ध°, युद्धि°, भूत°,

१मनस्°, लिङ्ग°, बलीपलित°,

स्वात्मना°, वि°, विज्ञाप°, शरीर°,

शोकमो°...स°, संकल्प°, सर्व°,

सर्वविप°, सुदुःख°, स्व°, स्वम°

ख°, स्वात्मन्°, स्वार्थ°

+१ नाश(क)- ४अ°

*२ नाशक- अर्थ°, ब्रह्महत्यादिपाप°,

भूतपि°...क°, सर्वपाप°

नाशन- अलक्ष्मीमल°, करुणुःखी-

घ°, कलिकलय°, जन्म°...व्या-

धि°, ज्ञानविज्ञान°, १पाप°, प्रज्ञ-

नाडीमु°...ल°, २भव°, भावना-

त्रय°, महापातक°, १पृत्यु°, वाच-

नाशय°, वि°, विपविम्°, संकल्प°,

संसार°, संसाराख्य°, सर्वसिद्धेह°

*नाशिन- ४अ°, अन्तर्मल°, उप°,

दारिद्र्य°, दुष्टग्रह°, दुःस्वप्न°,

पातक°, १पाप°, १सृष्ट्यु°, रोग°,

वि°, १विप°, सर्वाधिभ्याधि°

*नाशय- प्रतिनियतकारण°

√नद् अभि°, अव°, आ°, उप°, परि°

*नद- अभि° अव°, आ°, उप°, परि°

*नद्वि- वि°

*नद्- उप° पा°

*नहन- अभि°

*नाह- उप°, परि°

*नहुप- सुमुग्र°

१ नाग- इन्द्र°, दुष्ट°, दैत्य°, नर°,

२पौरुषाकालिक°, महत्°, १मुद्रा°,

३रोप°

नाग-क- अनन्त°

२ नाग- २कूर्म°, प्राण°

३ नाग- अष्टन्°

४ नाग- एतापत्रक°

नाचि-> नाचि(क)- त्रि°

नाट्य-√नद्(परि.) द्र.

नाडि, डी- अस्थि°, १कूर्म°, चन्द्र°,

तद्°, २दत्त°, दशन्°, द्वादशन्°,

नाना°, ४पिङ्गल°, पूषापरशिव-

नी°, प्रति°, प्रतिशाखा°, १ब्रह्मन्°,

१मधु°, मध्य°, महत्°, नात°, सर्व°

१सव्य°, सव्यदक्षिण°, सुमुग्ना°,

सूत्रा°, १स्य°, स्व°

नाडि(क->)का- दशन्°

*नाडी-व्रण- क्लिब°

नाडी-सहस्र- शाखा°

√नाश-> नाथ- ४अ°, अधि°, अना-

थ°, गण°, गोपी°, जगत°, नवन्°,

भूत°, १मनस्°, यामिनी°, २खु°,

पङ्कीश°

नादयत्-√नद्(परि.) द्र.

नाना-> *नाना-गण- अनन्त°

*नाना-गण-प- गणेशकुम्भ°...न्त°

*नाना-जयोस्त्न- पीतरुत्तराद्रित°

*नाना(ना-श्रा)श्म-भेद- देवतिर्य-

...पाधि°

नाना-न्व- ४अ°

*नाना-नन्दना(न-श्र)तीत- ४अ°

*नाना-पुर->री- इत्यादि°

*नाना-मङ्गल-वाद्य- दिव्य°

*नाना-रेखा- केसरसूत्र°...न°

नाना-लला- निकुञ्ज°

a) व्यु. ? । b) गपृ. (पृ४२४) शनि. संख्यानिर्देशः द्र. । c) द्रिस. । d) वत. (गपृ. पृ४२५ यति. संख्या-
निर्देशः द्र.) । e) अश्याः शै. अया. । f) भावे कर्तरि वा कृत् । g) वैश्व. यद. । h) वया. द्र. । =यमनि- २,पटिका- ।

नि/चि(चयने) > +नि-चय- क-
 ल्गान्त°, चिन्ता°, पदार्थ°, परमा-
 ...नी°, परिपूर्णा°...नी°
 +नि-चित- सुवर्ण°
 नि/चृत् > नि-चृत्- > निचृद्-
 गायत्री- मृत्°
 नि-चेतन- सचेतन°
 +/निज्, > निज्य निद्°
 २ निज- ५ न°
 + निज-योध- निरयधि°
 + निज-मन्द-कटाक्ष- अमोघ°
 + निज-माया- प्रगलित°
 + निज-मूर्ति- २ चैतन्य°, निरतिराया-
 ...न्द°
 + निज-मूर्त्या(ति-आ)कार- तदि-
 लक्षण°
 निज-स्वरूप- कालत्रयाबाधित°
 + नितम्ब- १ १३३°
 १ नित्य- ४ अ°, अध्यात्म°, १ आदि°,
 २ काल°, तपस्°, निराम°, निर-
 पम°, निर्यापिक°, पद्मदत्त°,
 महत्°
 नित्य-श्रीडा- वृन्दावनेश्वरी°
 नित्य-ता- १ अणु°, संवन्ध°
 नित्य-गृह- आनन्दसागर°
 नित्य-रथ- अध्यात्मज्ञान°, उभय°,
 सुखादि°, शब्द°
 + नित्य-परिजन- अनन्त°
 नित्य-मुक्त- अनन्त°, परानन्त°
 नित्य-चैकुण्ठ- अविद्यासा°...त°
 + नित्या(रथ-आ)त्म-विलापन-
 औदासीन्य°
 नित्या(रथ-आ)नन्द-रूप- संबलित°
 + निद् अति°, उ०°
 २ निदाघ- स्वेतकेतु°, २ संवर्तक°
 नि-दान- समस्तदिव्यमङ्गल°
 नि/दश > नि-दशन- स्वप्न°
 नि/द्वा > नि-द्व, द्वा- ४ अ°, अजाज्य°
 अविवेक°, अस्वप्न°, आधाराश-

क्ति°, उद्°, १ काम°, १ चुप्°,
 २ जाप्रत्°, २ जाप्रत्°, प्रमाण°,
 १ शौज°, मूर्च्छा°, २ योग°, विगत°,
 शिवयोग°, शीतोष्णाहार°, सुख°,
 सुरतकला°, सुरतान्त°, स्वप्न°,
 स्वल्प°
 नि/धा > नि-धन- ४ अ°, अव्यक्त°,
 १ आदि°, दुःख°
 नि-धाय गर्भ २०°
 नि-धि- अहपातु...दि°, अव्यक्त°,
 १ कच्छप°, कदणा°, कल्याण°,
 किशोर...ला°, केवलरस°, गदड°,
 १ ज्ञान°, ज्ञानयोग°, तपस्°, दया°,
 नवत्°, नवरत्न°, ज्ञानाधुरतानन्द°
 १ पद्म°, परमानन्द°, १ प्रह्लात्°,
 मङ्गल°, ३ महापद्म°, मुकुन्द°,
 १ मोक्ष°, लक्ष्मी°, विद्या°, १ राहू°
 शङ्खपद्म°, ६ स°, सर्ववेदतपस्°,
 हिरण्य°
 नि-हित- आद्यन्त°, बुद्धिगुहा°
 नि/ध्वे > दिध्यास्त > नि-दिध्या-
 सन- देहन्दि...ह°, २ धवण°
 नि/नद > नि-नाद- कस्यपयदा°,
 २ घटा°
 ✓ निन्द वि°
 निन्द, न्दा- ४ अ°, ५ न°
 निन्दा(न्दा-आ)त्म-संस्तुति-
 तुल्य°
 निन्दा-स्तुति- तुल्य°, ५ न°
 + निन्दक- २ वेद°
 निन्दित- निन्द- ४ अ°
 नि/पत्(गतौ) > नि-पात- -तात् वरा
 २, ६ ५. [°त- ऊर्ध्वशक्ति°]
 नि/पीद् > + नि-पीडन- रसानाम°
 नि/पुण् > नि-पुण- सु°
 नि/वन्ध् > नि-वद्ध- सु°
 नि-वन्धन- अनिव्याक्ति°, चन्द्रधर्य°,
 प्रकृति°, १ रूप°
 + नि-वन्धि(व्)नी- रिपति°

+ नि/यर्ह > नि-यर्हण, णी°- मृत्यु-
 जन्मन्, सर्वशत्रु°
 + नि-यर्हि(व्)णी- सर्वशत्रु°
 + नि/भा > नि-म- अपरिमितयुति°,
 इन्द्रनील°, ईश्वर°, चन्द्रो-
 दय°, चिद्रूपविलास°, वृत्ताकोटि°,
 १ पद्म°, पद्मसूत्र°, पद्मकेन°, विस-
 तन्तु°, रुक्माम्बर°, विद्युत्°,
 शङ्खध्वनि°, शतचन्द्र°, शक्तिन्°,
 सजलगा°...नि°, समुद्यदर्क°,
 १ सूर्य°, स्थिरदीप°, स्तुतिपत्र°
 नि/मञ्ज् > नि-मञ्ज- अज्ञानपङ्क°,
 आनन्दरत्न°
 नि-मञ्जन- तत्पादुका°, देहशर...ता°
 निमित्त- ४ अ°, अनादिवि...म°,
 उत्पत्तिमात्र°, देश°, कर्मन्°, द्वि°
 निद्, २ पुरविमोक्ष°, प्राणयात्रा°
 वरसविशुद्धि°, ६ स°, संयोग°,
 सर्व°, सष्टि°
 नैमित्तिक- १ नित्य°, निमित्त°
 + निमित्त(-क)- अविवेक°, लिङ्ग-
 शरीर°, सर्वप्रवृत्तिसंवेष्टु°
 नि/मिप् > नि-मेष- उन्मेष°, कला°
 नि/मील् > नि-मीलन- अक्षयादि°
 नि-मीलित- उन्मीलित°
 निम्न- भेद°, विवेक°
 + नि/यन्त्रि (< यन्त्र-) > नि-यन्त्रि-
 त्त- पुरणपाप°
 नि/यम्(यमने) > नि-यत- ४ अ°,
 प्रति°, स्वभाव°
 + नैयत्य- वेदोक्तवि...ष्टान°
 नि-यन्त- धामत्रय°, पञ्चकृत्य°,
 युद्धीन्द्रिय°, सर्व°
 नि-यम- -मन नापर, [°म- ४ अ°,
 अन्यतर°, अरु°, आसन°, उपा-
 दान°, एकादशी°...त° ३ काल°,
 चातुर्मास्यमत°, जपपूजादि°, तद्°
 प्रकाश°, प्रत्यक्षत्वं, गालुबुद्धि°,
 २ यम°, मत°, पद्मदार्थ°, पु°

स्थान°, स्वस्वशक्ति°
 +नि-यामक- ४अ°, मन्त्रशक्ति°
 निर्-अङ्कुश- निरतिशय°
 निर्-अतिशय- निरन्तर°°, निरुपम°
 निरन्तर°°
 +निरतिशय-परमानन्द- अद्वैत°°
 +निरतिशया(य-अ)द्वैत-परमानन्द-
 लक्षण-पर-ब्रह्मन्- अधिष्ठान-
 विशेष°
 १निरतिशया(य-आ)नन्द- ब्रह्मा-
 नन्दमय°°, लीलाग्रहीत°
 +निरतिशयानन्द-मय- केवल-
 मन्त्रमय°°, पुराकल्पितमन्त्रमय°°
 +निरतिशयानन्द-समुद्र- अन-
 न्त°
 +निरतिशया(य-आ)नन्दमया-
 (य-अ)श्रुत-नदी- सूर्यमण्डला-
 न्त...निर्गत°
 निर्-अन्तर- १ब्रह्मानन्द°
 नैरन्तयं- दीर्घकाल°
 नि/रम् > निर-त- अभ्यासमात्र°,
 गुरुशुभ्रा°, मदेकज्ञा°, वेदान्ता-
 भ्यास° व्याख्यान°, १सत्कर्मन्°,
 स्वकर्मन्°, स्वदार°, स्वधर्म°,
 स्वरूपस्थान°
 निर्-अवच- निरुपम°°
 +निर-अवधिक- निरुपम°°
 निर्-अवयवच- निरुप°
 +निर(र/अ)स्(क्षेपणे) > निर्-अस-
 न- अरिष्ट°, क्षुधादि°, १शिव°
 निर्-अस्त- ४अ°, अनेकलोभादि°
 +निरस्त-सर्व-क्षेप-कर्ममल-
 क्षयदानन्द°
 +निर-भास- आरोपिताद्ये...स्तु°,
 तद्°
 निर्-भाकार- ४अ°, १केवल°, वाचा-
 मगोचर°, साकार°
 निर्-आ/ह(करणे) > निरा-करण-
 ४अ°, १गर्वकर्मन्°

निर-आमय- सर्व°
 निर्-आलम्ब- ईशावास्व°°, साल-
 म्ब°
 निर्-आश- ४अ°
 निर्-आशा-> नैराश- उपाधि°
 +निर-आ/ह > निरा-हारक- अ-
 धर्वण...मि°
 निर्/ईक्ष, निरीक्षेत जाद ३, ६, २°.
 +निर-ईक्ष- दुर्°
 +निर-ईक्ष्य- ४अ°
 नि/रुध् > नि-रुद्ध- ४अ°
 नि-रोध- ४अ°, उपराग°, चित्तवृत्ति°
 जन्मन्°, तद्°, दृष्टि°, पूर्व°, प्रति-
 संख्या...ख्या°, प्राणस्पन्द°,
 वृत्ति°, व्युत्थान°, सर्व°, स्वगमन°
 नि-रोधक- तद्°, मार्गत्रय°, वायु-
 मति°
 नि-रोधन- तद्°, पादाहुष्ठ°, प्राण°,
 प्राणस्पन्द°, १मनस्°, वाहमनः-
 प्राण°, वायु°, ध्वणमुख...सा°,
 श्रोत्र°, सर्वद्वार°
 +नि-रोधिन्- अन्धकार°, १मनस्°
 निर्-उप(मा)म- निरन्तर°
 निर्-उपाधिक-> +निरुपाधिक-
 संविद्- विद् भा २७°
 नि/रूप > वि > +नि-रूपण- ४अ°,
 १प्रश्न°
 +नि-रूप्य- ४अ°
 निर्-कृति- इन्द्र°°, शक°°
 निर्/गम् > निर्-गत- सूर्यमण्ड-
 ला...ष्ठ°, स्वर्°
 +निर-गमन- घृत°
 निर्-गुण- सगुण°
 +निर/ग्रह् > निर्-ग्राह- परिणा-
 मापान्त°
 +निर/घुप् > निर्-घोष- महावा-
 वादित्र°
 +निर-घु(ण) > ण-> नैर्घण्य- वैषम्य°
 निर्-जन- विशरय°

निर्भर- विद्वानन्दरस°, जलधि°°,
 तदङ्गकान्ति°, शून्यागार°°
 निर्/पी(<नी) > निर्-णय- आ-
 त्मन्°, एकजीवादि°, परमात्तर°,
 पुरुषसूक्तार्थ°, प्रत्यक्ष°, सर्वशा-
 स्त्रार्थ°, हंसपरमहंस°
 निर्/दिश् > निर्-देश- भेद°
 +निर-देश्य- ४अ°
 +निर/धाष्(शुद्धौ) > निर्-धौत-
 समाधि°
 निर्/धु > निर्-धृत- १ज्ञान°, मोह-
 जालक°, समाधि°
 +निर्धूत-कल्मष- तीर्थ°
 निर्/धु > धारि > निर्-धारण-
 तद्°, तदभाव°
 निर्-भय- अति°
 निर्-भर- आनन्दरस°, परमानन्द°,
 पारावारानन्दरस°, ब्रह्मानन्दरस°
 निर्-भाग-> निर्भाग-स्व- तद्°
 +निर/भास् > निर्-भास- अर्थ-
 मात्र°, १द्वैत°
 निर्/भिद् > +निर-भिण्ण- ४अ°
 +निर/मथ् > निर्-मथन- १ज्ञान°,
 ध्यान°, १मनस्°
 निर्-म(ल) > ला'- -ला सार २८३ :
 १६. [° छ- अति°, अत्यन्त°,
 अनियामकत्व°, १नित्य°, प्रकृति°
 बुद्धि°, २योग°, सु°, श्लिष°]
 निर्/मा(मति) > निर्-माय- जगत्°
 नानाविचित्रजगत्°, भोगायतन°,
 यन्त्र°, समस्तवे...र°
 निर्-मित- काष्ठादि°, तन्तु°, १देव°,
 प्राकर्म°, १शिव°, हेला°
 निर्-माल्य- १अज्ञान°, १शिव°
 निर्/मुच् > मोक्ष > निर्-मुक्त- अ-
 रोपपाप°, कार्यकारण°, कार्यकार-
 णकर्मन्°, स्यातिशय°, २चैत्य°,
 जन्तुशैवाल°, जराभरण°, दम्भा-
 हंकार°, दृश्यदर्शन°, द्वन्द्वभेद°,

a) अच्चाः यो. अया. । b) ताग्निः अया. । c) गय, (दृ४५८) यनि. शोषः द्र. ।

पापमल^०, १भय^०, शर्करापाण्डु^०,
संसक्ति^०, समस्तपाप^०, १सर्व-
कर्मन्^०, सर्वपाप^०, सर्वातुभव^०,
साधन^०, हेयोपादेय^०
+निर-मोक- १अहि^०, सर्प^०
निर-मोक्ष- स्वदेहमल^०
निर-मूल->√निर्मूलि > +निर्मु-
लन- अशुभकर्मन्^०, कर्मन्^०,
शुभाशुभकर्मन्^०
निर/यस्>निर-यास- १मूल^{००}
+निर/या > पि > निर-यापण-
२काल^०
+निर-लिस- अन्तर^०
निर/वच्>निर-उक्त- ४अ^०
+निर-उक्ति- श्रुक्तित्रक^०
+१निर-वचन-> +निर्वचनीय-
+निर-वाच्य- ४अ^०
+निर/वर्ण>णि>निर-वर्ण्य-
४अ^०
निर/वा,>वापि>निर-वाण-
४अ^०, ऐतरेय^{००}, १ज्ञान^०, निर्म-
ल^०, १ब्रह्मन्^०, रक्तशुक्लमिश्र^०,
६स^०, सर्व^०
+निर-वापण- भवसंताप^०
निर-वास(वा>)न->+निर्वास-
नी/भू>निर्वासनी-भाव-
१मनस्^०
निर-विचिकित्स- भ्रवणमनन^०
निर/विद्(लाभे)>निर-विष्ण-
४अ^०, ५न^०
निर-विशेष- परम^०
निर/वृ(वर्णे)>निर-वृत- सु^०
निर-वृत्ति>+निवृत्ति-वाचक- -कः
गोष् १^०
निर/वृत्>+निर-वर्तक- किया^०
+निर-वृत्ति- ४अ^०, किया^०, निर्वा-
ण^०, १भाव^०
+निर/ह>निर-हरण- धम^०

नि/ली>नि-लय- ४अ^०, द्वारका^०,
ब्रह्माण्ड^०, भूमध्य^०, हुतवह^०
नि-लयन- ४अ^०
+नि-लीन- पुलिन^०
नि/वस्(निवासे), निवसेत् नाप
१९९:३.
नि-वास- २कु^०, जगत्^०, तन्मुद्रा-
...निर^०, सर्वभूत^०
+नि-वासिन्, नी- निकेत^०, न्यग्रो-
धान्त^०, वृन्दावन^०, ब्रह्मरन्ध्र^०,
भद्रकृष्ण^०, महावृत्^०, स्वर्ग^०
नि-यात- १गृहा^०, मनःशवा^{०००}प^०
नि/विद्(ज्ञाने)>नि-वेदन- प्रहण^०,
१पाथ^{००}, फलपात्र^०, महादान^०,
सर्व^०
नि-वेद्य ४अ^०
नि-वेद्य->नैवेद्य- २पत्^०, मुर्ति^०
+नैवेद्य-पीठा(ठ-आ)वरण- म-
हत्^०
नि/विद्>वेदि>नि-वेशि(त>)-
ष्ठा- नारायण^०
नि/वृ(प्रतिपातने)>वारि>+नि-
वारण^०- आपद्^०, परविद्या^०,
पाशुपत्...त्र^०, महाभय^०, २सर्व-
प्रह^०, सर्वविद्^०, सर्वशत्रु^०, सर्वा-
घोष^०
+नि-वारिन्- सकलदुरित^०
नि/वृत्>नि-वर्तक- ४अ^०, लक्ष्या-
लक्ष्य^०, सर्व^०, १सर्वकर्मन्^०, सर्व-
क्रियाकारक^०, सर्वमूलाविद्या^०
+नि-वर्तिन्- नग्न^०
नि-वृत्त- १आशा^०, १नित्य^०, प्राणि-
हिंसा^०, सर्वसङ्ग^०
नि-वृत्ति- अत्यन्त^०, अन्य^०, आत्म-
भावभावना^०, औत्सुक्य^०, कर्तृत्वा-
दितुःख^०, ज्ञेयकर्मन्^०, १सृष्टिपा-
सा^०, चक्षुरोग^०, तद्^०, तदुभय^०,
समस्^०, दुःख^०, दौर्भाग्य^०, निः-

शेपदुःख^०, पद्मभ्रम^०, पुनर्वेत्तन्^०,
बुद्धिज्ञोभ^०, १मनेस्^०, विश्वमाया^०
संसार^०, संसारार्ति^०, सर्व^०, सर्वपा-
प^०, सर्वरोग^०, सर्वाघोष^०, सर्वेनस्^०,
सृष्टि^०, २व^०
+निवृत्ति-मार्ग- विमुक्त्याभिमुख^०
निशा->निश- ४अ^०, १अहर्^०, दिवा^०
निशा-कर- दिवाकर^०
निशुम्भ- २मधु^{००}
नि/शो>शि>नि-शित- उपासा^०
नि(सु)>श-चल- अभ्यन्तर^०, परि^०, सु^०
+नैदल्य- तद्दृष्टि^०
नि(सु)>श/चि(ज्ञाने)>निश-चय-
अन्तर^०, आशुर^०, एक^०, कृत^०,
१ज्ञान^{००}, ग्रह...स्व^०, १दृढ^०,
प्रत्यमानन्द^०, १ब्रह्मन्^०, वेदान्त^०,
संकल्प^०, सर्व^०, सु^०, सात्वन्^०
निश-चित- तम् गोउ१५५. [०] त-
४अ^०, सु^०
१नि/श्वस्>१नि-श्वस- उ-
च्छ्वास^०, १काम^{००}
निश्वसो(स-उ)च्छ्वास- मूर्छानिशा-
मय^०
२नि/श्वस्
नि(सु):-शोष->+निःशोषकर्मन्-
त्वक^०
+निःशोष-संकल्प- निरस्त^०
नि-पाद्- पङ्क^{००}
नि/पि(<शि)ष्>नि-पिद्- ४अ^०
नि-पेध- विधि^०
+नि/पू(<स)द्(हिंसायाम्)>दि>
नि-पूदन- केशिन्^०
नि/पे(<से)ष्>+नि-पेधण- अभ-
क्ष्याप्त^०, अमृत^०
+नि-पेवित- श्रपि^०
नि(सु)>प-कल- सकल^०
नि(सु)>प/रूप>+निष्कर्ष- द्वा-
विशक्तव^०

नि(स्)प्-क्रिय- वि°
 +नि-ष्टि- -ध्याः मना २, १३, २५°.
 नि/ष्टा (<स्था) > नि-ष्ट, ष्टा- अद्वैत°
 अध्यात्म°, आत्मन्°, एक°, गुरु-
 कर्मतीर्थ°, गुरुपाप°, १ज्ञान°, तत्त्व°
 तद्°, तपस्°, द्रव्य°, धर्म°, ध्यान°,
 प्राणायामैक°, १ब्रह्मन्°, २भक्ति°,
 भस्मन्°, मद्रुक्ति°, २योग°, सक-
 लमन्त्रजप°, समाधि°, सर्व°, सर्व-
 पाप°, स्वभावैक°, स्वात्मन्°
 नि/ष्टि (>ष्टी)च् > +नि-ष्टीवत्-
 हास्य°
 नि(स्)प्/पद् > निष्-पत्ति- अ-
 मृत°, तज्ज्ञान°, १विज्ञान°
 निष्-पत्त- पूर्व°
 +निष्-पाद्य- ध्यान°
 +नि/ष्प (<स्प) न्द् > १नि-ष्पन्द-
 ४अ°
 २नि-ष्पन्द°- १चिन्°
 नि-स्पृह- अन्य°, सर्वापाश्रय°
 +नि/स्वयन् > नि-स्वयन- महावा-
 दित्र°
 +नि(स्)ः-सीम- निरवधि°
 निस्/स्था > तिष् > निस्-तिष्ठत्-
 ४अ°
 +नि(स्)ः-स्पृह- सर्व°
 +नि(स्)ः/स्वयन् > निःस्वयन-
 किंछुशी...र°, दीर्घ°
 नि/हन् > +नि-ह- विपज्वर°
 नि/ह्नु > +नि-ह्नुति- संसार°
 √नी > नावि अति°, अनु°, अप°,
 अभ्या°, अय°, आ°, उद्°, उप°,
 उपा°, उपाय°, निद्र°, प्र°, वि°,
 विनिद्र°, मत्°, रामव°, गमा°
 नप- आचार°, निद्र°, प्र°, वि°,
 सप्°
 मयन्- उप°

नयन- अनेक°, उद्°, उप°, तद्°,
 त्रि°, नासाग्रन्यस्त°, १पद्म°, प्र°,
 रतिभर...लित°, वक्त्र°, ३श्रव-
 ण°°, सत्पुरुडरीक°, सर्व°, सोम-
 सूर्याग्नि°
 +नयन-त्रय- शशिसू...क°
 +नाय- अश्व°, गो°, १पुरुष°
 नायक- अखिल...रुड°, १चक्र°,
 ब्रह्माण्ड°, मन्त्र°, महाचक्र°, वि°,
 २प्रज्ञ°, हरि°
 +नायन- उप°
 +नारय- प्र°
 +नी- १भाम°, १वाम°, सेना°
 नीत- अनु°, आ°, उप°, १नव°,
 निद्र°, प्र°, विनिद्र°
 नीति- २जाति°, २पुराण°
 +नीय अप°, आ°, उप°, सम्°
 नेत्र- उप°, प्र°, प्राणशरीर°, यज्ञ°,
 विनिद्र°
 नेत्र- अग्नि°, १कमल°, चम्पक°,
 १ज्ञान°, त्रि°, २त्वचू°, दीप्त-
 विशाल°, २पितृ°, प्रज्ञा°, बाहु°°,
 १याम्य°, १रुद्र°, वक्त्र°, १वज्र°,
 विष्णु°, शशिसूर्य°, सर्व°, १सव्य°
 सोमसूर्याग्नि°, सोमाकार्माग्नि°, रुक्-
 टिक°°
 नेत्र-द्वय- २जामत्°
 +नेत्र-शूल...- अश्रुशूल°°
 नी[नि/इ (गतौ)] श्वेति कौ ३, ३.
 १न्या(नि-ध्या)य- ४अ°, दुसालच-
 क्र°, निर्देशश्रुतक°, प्रति°, धमर-
 कीट°, २समान°
 २न्याय- जैन°°, २पुराण°,
 भीर्मांगा°, १श्रुति°
 नीच- अति°, उच्च°
 नीड(ळ)- ४अ°, एक°, १प्रज्ञन्°,
 यथाप-श्रुत°, ५स°

+नीप...- आम्र°°
 नीर- वीर°
 +नीरचट...- आम्र°°
 १नील...- अभिनवजलद°, आरुह्य°,
 इन्द्र°, १कडु°, श्री°°, २हरित°°
 नील-कण्ठ- महत्°
 +नील-ज्योतिस्- चतुर्भुज°
 +नीलज्योतिः-स्थल- चतुर्भुज-
 गत°
 +नील-पीत-रक्त-मणि- नासाभरण°
 नील-मणि- पयरा...ल°, हृदकोप-
 घटित°
 नीलो(ल-उ)खल- चम्पक°°
 नी-वार- उदुम्बर°°
 √नु अग्निप्र°, उप°, निद्र°, प्र°
 +२नव- प्र°
 +नु(त)ता- नारद°
 नुय अग्निप्र°
 √नुद् > नोदि अप°, उपसम्°, निद्र°,
 प्र°, वि°
 +नुद्- १पाप°
 +नुद्- अप°, १पाप°
 +नोद्- वि°
 +नोर्ध प्र°
 +नोत्त- अप°
 नूल- १नव°
 +नूल-भाव- १नित्य°
 नृ- > नृ-चक्षस्- -क्षसम् मउ ९, ५५°.
 नृ-प- अधार्मिक°
 नृ-शंस- ४अ°
 नृ-सिंह- -हाय मउ ३, १७. [°ह-
 ४अ°, अति°, नारायण°, २भस्व्य°
 विष्णु°]
 +नृसिंह-ताप(>)नी...-
 २प्रभ°°
 √नृत् > नृय- उदात्त°, १मुगन्ध°,
 १गुरत°

a) तेषां १०, ११, २ (तु. टि. वेन २, ५६७) । b) मृत्. (३४६४) यनि. संख्यानिर्देशः ३. । c) विसर्गलोपः उर्ध. (पापा ८, ३, २६) । d) यथा. ३. । e) माये करणे वा ष्टा । f) ध्यु! <नि + अण्- इति MW. = इच्छुविशोप- । g) ध्यु! = इच्छुविशोप- । h) = वर्षाविशोप- वा तद्- वा । i) तेषां १०, १०, २ । j) = तदाख्योपनिषद्-विशोप- ।

नेमि- अरिष्ट°, एक°, रय°
 नैयत्य- नि/यम् (यमने) परि. द.
 नैराश्य- निराशा- (परि.) द.
 नैर्घृण्य- निर्घृण- (परि.) द.
 नैर्घल्य- निघल- (परि.) द.
 नोद- नोघ, नोघ- / सुद (परि.) द.
 नौ- प्रज्ञा°
 न्यग्रोध- धाम°, महत्°
 न्य(नि/अ)स्(क्षेपणे) > न्य(नि-अ)-
 सन- ४अ°
 न्य(नि-अ)स्त- नासाम°, वक्षस्°,
 वानोह°
 न्या(नि-आ)स- १अज्ञ°, अर्धचं°,
 २कर°, तृचं°, नंवाशीति°, पद°,
 पाद°, प्रश्रुत्यालोक°, १बीज°,
 ब्रह्मभि°, विद्या°, विद्याराज्ञी°, श्री-
 चक्र°, १पडङ्ग°, मोढा°, सर्व°, सर्व-
 संविद्°, सुदर्शनादि°, स्थानशुद्धि°
 हंस°, हृदयादि°, हृदयाद्यज्ञ°
 + न्यासा(स-अ)धिकरण- मन्त्र-
 जपाधिकरण°
 + न्या(नि-आ)सिन्- पोढा°, हंस-
 पोढा°
 न्यु(नि-उ)न- ४अ°
 न्ये(नि-आ/इ) > न्ये(न्या-इ)रय को
 ३, ३.

प

१प+ > +पकार- १आकार°
 २प- / पा (पाने) परि. द.
 ३प- / पा (रक्षणे) परि. द.
 ४प- / पा (*बधा.) परि. द.
 पक्ष- अपक्षीयमाण°, अपर°, अष्टाक्षर°
 + आपक्षीयमाण°, वभय°, एकाक्षर°,
 कौट°, १कृष्ण°, चञ्चु°, १त्रिद-
 रड° दिन°, दुःख°, दैत्य°,
 पुच्छ°, पूर्वे°, प्रति°, मित्रारि°

१वप्र°, १वार°, वि°, २शुक्ल°,
 शुद्ध°, मुखर्णे°, स्व°
 + पक्ष(क)- २दाक्षिण°
 पक्ष-चञ्चुक°-
 पक्ष-पात- ४अ°
 पक्षिन्- निरहंकार°, पशु°, मृग°
 + पक्षस्(10)- सिरस्°
 पद्मन्- तन्तुकारण°
 पङ्क- १अज्ञान°, अज्ञानमत°, अति°,
 गोपीचन्दन°, २जल°, दार°, बहु°,
 मोह°
 पङ्क-ज- रत्न°, १हृद्°, हृदय°
 + पङ्कजा(ज-आ)सन्- सरस्°
 दिक्का°
 पङ्क्ति- अमिकण°, गुरु°, प्रति°, प्रस्ता-
 र°, २वासना°, ५सं, सहस्र°, स्तम्भ°
 + पच अतु°, परि°, वि°
 पक्- ४अ°, अत्यन्त°, अनेकज°
 अ°, घृत°, परि°, गु°
 + पक्-रस- खाद्यपे° विष°
 पक्का(क-अ)घ- सिद्धि°
 + पच- मृद्°, रवन्°
 पचन- अन्वाहार्ये°
 + पचना(न-अ)भि- श्रोत्रियागार°
 + पचय- अकृष्ट°
 + पचयमान- सु°
 पक्-अग्र°, कुम्भी°, परि°, प्राक्, र्म-
 फल°, वि°, रवन्°, स्थाली°
 + पाक्य- बहु°, हेय°
 + / पङ्क, > + पञ्च, + पञ्चमान- प्र°
 १पञ्चजन- > पाञ्चजन्य- सुदर्शन°
 पञ्चन्- अर्धे°, त्वक्को° प्राण°, दि°,
 स्मितसंपूर्णपचविध°
 पञ्चक- अंश°, अक्षर°, कर्मेश्वर्य°,
 २गय°, गुण°, ज्ञानेश्वर्य°, २त-
 म्मात्र°, नामन्°, पचन्°, प्राणादि°
 मूल°, भूमिका°, १म°, योनि°, वच-

ना... नन्द°, वियदादि°, व्योमन्°
 पञ्च-तन्-मात्र- अहंकरादि°
 पञ्च-दशान्-> पञ्चदश- दशाव् वौ
 १, २°
 + पञ्च-नामन्- कृष्णादि°
 पञ्च-ब्रह्मन्(14)- वृषवल्ली°, तार-
 सार°
 पञ्च-ब्रह्म-मन्त्र- - न्यः(इन्द्रैः) वपं
 ३११:२. [न्द्र- इत्यादि°,
 सद्योजातादि°]
 पञ्च-भूत- ४अ°
 पञ्च-म- -मम् धिता २, ५७. [म-
 ऐन्द्र°, कामिका°]
 + पञ्च-महा-पातक- सद्योत्पन्न°
 पञ्च-महा-भूत- पृथिव्यादि°, पृ-
 थ्व्य° श°
 पञ्च-मुख- चतुर्मुख°
 + पञ्च-मुद्रा- महाचीन°
 पञ्च-वर्ग-> पञ्चवर्ण-क- पृथिव्या-
 दि°, पृथ्व्य° श°
 १पञ्च-वासु- प्राणादि°
 पञ्च-विंशति-> पञ्चविंशक-
 पञ्चविंशति-वस्सर- गार्हस्थ्यो-
 चित°
 पञ्च-विधा-> च- स्मितसंपूर्ण°
 १पञ्चा(घ-अ)श(र)री- गहड°
 २पञ्चा(घ-अ)क्षर- १शिव°
 + पञ्चाक्षर-जप- त्यक्त°
 + पञ्चाक्षर-मन्त्र- गहड°, १शिव°
 + पञ्चा(घ-अ)वन- पारर्वर्य°
 + १पञ्चा(घ-अ)र्ण- १तार°
 २पञ्चा(घ-अ)र्ण-
 पञ्चाशत्- एकेन°
 + पञ्चाशद्-अक्षर- २मातृका°
 + पञ्चाशद्- पञ्च°
 पञ्ची/क(करणे) > पञ्ची-करण-,
 पञ्चीकृत- ४अ°

ध) गहृ. (इ ४०१) यनि. शोधः द. 1. b) वैप१ य३. 1 = पच- 1 c) 'अर्धमास्यम्, इति जैत्रा १, ५० (तु. टि. वैप२ यस्या.) 1. d) = तदाख्योपनिषद्-विशेष- 1 e) गहृ. (इ ४०२) प्राति. यनि. शोधः द. 1. f) पा. १ यनि. शोधः द. 1 g) अत्र टि. 'तु. टि. एकत्रिंशक- 'इत्येवं शोधः द. 1 h) द्वि२. 1 i) गहृ. (इ ४०५) यनि. संख्यानिर्देशः द. 1

पञ्चे(स-ने)न्द्रिय-चक्षुस्°
 +पञ्चेन्द्रिय-भ्रम-गत°
 पञ्चमान-√पञ्च(परि.)द्र.
 पञ्चाल-२कुह°
 पञ्जर-१अज्ञ°,तन्तु°,पारा°,मच्छरी-
 रक°,१घञ्ज°
 √पट(वधा.)>पाटि उद्°,परि°,
 वि°
 +१पट-उद्°
 २पट-२घट°,तद्°,२पट°,२शुक्र°,
 संकोचित°
 +पटल-पार्श्वदन्त°
 पटु-
 +पाटव-अभ्यास°
 +पटु-वा-चेत्रपात्र°
 +पटु-त्व-अनादिवासना°
 +पटोल-गत्र°
 १पट-गपु. पृ ४७६ द्र.
 २पट-पुष्प°
 ३पट-गपु. पृ ४७६ द्र.
 ४पट-२योग°,ललाट°,स्तम्भ°
 +पट्टा(द्व-भ्र)भिषेक-समस्तमो-
 क्षाम्राज्य°
 +५पट्ट->+पट्ट-चतुष्टय-१ट्ट°
 +६पट्ट-राज्य°
 +पाटक-उद्°
 +पाटि-परि°
 +पाटित-वि°
 +पाट्य उद्°,वि°
 +पट्टण-नगर°
 √पट् परि°,प्र°,व्या°
 पटन-अर्षवणवेद°,प्र°
 पटि(त)>ता-२पुराण°
 +पाठ-तज्ञीला°
 +पाठक-१मत्त°,मन्त्र°
 +√पण>पण-वि°
 पण्डित-धेय°
 पाण्डित्य-सर्वविद्या°

√पत्(गती)>पाति अतु°,आ°,
 उद्°,उपनि°,नि°,परि°,प्र°,
 प्रणि°,वि°,विपरि°,व्यति°,
 संनि°,सम्°
 पतत्-४अ°,आ°,उद्°,प्र°
 पतन-देह°,प्र°
 पतित-अभिशास्त्°,आलुङ्गे°,उद्°,
 नि°,म्लेच्छेच्छे°,रुद्र°
 +पतितुम् उद्°
 +पत्य उपनि°,प्रणि°,विपरि°
 पात-गर्भ°,देह°,नाराचनिकर°,नि°
 निर्घात°,पञ्च°,पिरड°,प्रणि°,
 भूमि°,व्यति>ती°,संनि°,सम्°
 +पालन-निशितासिसत°
 +पातिन्-अतु°,संसारार्णव°
 पतङ्ग-कीट°,शुमि°
 +पतङ्ग-क-तृष्ण°
 पतञ्जलि->पातञ्जल-जैन°
 +पता(क)>का-छत्र°,ध्वज°
 +पताका-ध्वज-तोरण-ब्रह्मानन्दा-
 नुभव°
 १पति-अधि°,भक्त°,अम्बिका°,अच-
 सान°,अरव°,अष्टाशा°,१आ-
 रि°,उमा°,ऋग्वेदुःसा...रस्°,
 ऋत्->ऋतस्°,ककुद्°,कमला°
 काष्ठा°,गण°,रुह°,गो°,चक्षुस्°,
 जगत्°,तद्°,२तारा°,२खच्°,
 दिश°,१धन°,१धरा°,नर°,
 निधन°,निधि°,वृ°,१पशु°,पुष्टि°
 श्रुषिवी°,प्रजा°,प्रधानक्षेत्रज्ञ°,
 प्रमथ°,प्रिय°,१भवानी°,भुवस्°,
 १भू°,भूत्°,भूर°,भूधेवःस्वर°,
 मन्तु°,मदी°,यज्ञ°,रथ°,२रमा°,
 १हृद्°,१काच्°,वाग्नि°,१विज्ञा-
 न°,१पत्नी°,प्रात°,२राची°,धी°,
 श्रोत्र°,१सत्°,सर्वजगत्°,सर्वीम-
 य°,सीता°,२सुर°,स्वर्°,द्विरण्य°

पत्नी-स्त्रीम् गर्भे २०। [°ञी-
 १आशा°,१राम°,विष्णु°]
 +पति(क)>का-स्वार्थान-
 २पति(२ब्रह्मन्->ज्ञान)-वित्म
 मना २,३,४,५; प्रा १,६,७.
 ३पति(२रै->रायः)-गपु. पृ ४७८ द्र.
 ४पति(२वाच्->वाचः)-तथे व
 ४६५ : ४६६.
 पत्तन-६स°
 प(त)>पत्र-अञ्ज°,अश्वत्थादि°,अ-
 छन्°,असि°,आमेय°,आनन्द°,
 उत्तान°,१कमल°,खर्जूरताल°,
 ताम्बूल°,तुलसी°,तृष्ण°,डा-
 त्रिंशत्°,डादशन्°,१पद्म°,पला-
 श...त्र°,पीठ°,पुष्प°,पूर्व°,
 १फल°,विल्व°,भूर्ज°,१मूल°,
 वसु°,शत°,शतदलपद्म°,पप्°,
 षोडशन्°,स्नुहि°
 +पत्र-कुसुम-कन्द-मूल-फल-,पत्र-
 पुष्प-,+पत्र-संख्यान-तद्°
 √पथ>पथ-आदित्य°,उदुद्°,
 खेचरी°,चतुर्°,मि°,दष्टि°,
 १देव°,१ब्रह्मन्°,मनःशान्ति°,
 महत्°,१मोक्ष°,२योग°,शत°,
 शिवपूजा°,१सत्°,सु°,स्त्री°
 १पथिन्->१पथ-पथि अना ३.
 पथ्य-४अ°
 पथ्या-२सैन्धव°
 √पद् अति°,अतुप्र°,अभि°,अभिनि°,
 अभिनिष्°,अभिप्र°,अभिसम्°,
 अभिसंप्र°,अव°,आ°,उद्°,
 उदुद्°,उप°,उपसम्°,नि°,
 निष्°,परासम्°,प्र°,प्रति°,प्रत्या°
 वि°,विप्रति°,व्युद्°,सम्°,समा°
 ससुद्°
 +पत्ति-आ°,उद्°,उप°,निष्°,
 प्रति°,प्रत्या°,विप्रति°,व्युद्°,

a) गपु. (पृ ४७६) यनि. संख्यानिर्देशः द्र. 1. b) =पत्र- 1. c) अर्थः? 1. d) व्यु. ? =पत्तन- 1. e) व्यु. ? 1.
 f) अष्टाः सा. अया. 1. g) गपु. (पृ ४७८) यनि. शोधः द्र. (पु. गपु. पृ ४७८) 1. h) तैत्त्या २, १२, ११

सम्^० समा^० समुद्^०
 + १पद्- ४अ^०, आ^०, प्रति^०, १युग^०
 वि^०, सम्^०
 पद्- ४अ^०, अकर्तृ^०, अक्षर^०, अख-
 रणानन्द^०, अण्णिमादि^०, अनन्त^०,
 अनानन्द^०, अनु^०, अमर^०, अष्टम्^०
 असि^०, आत्मन्^०, आश्रम^०, इ-
 न्द्रादि^०, उच्चैः^०, उच्छिष्ट^०, एक^०,
 १क्षति^०, कैवल्य^०, गिरिपर्वतसाग-
 र^०, गोस्^०, चतुर^०, चतुर्थ^०, चरम^०,
 १जन^०, जीवन्मुक्त^०, तत्तद्^०, त-
 र्वम्^०, तद्^०, तद्विवर्त^०, तीर्थोश्रम^०
 १तुष्य^०, तुयंरूप^०, तुर्थातीत^०, नृती-
 य^०, त्रि^०, त्वन्^०, ६दक्षिणा^०,
 दु^०, देवी^०, देवेन्द्र^०, द्वादशान्त^०,
 द्वितीय^०, १नमस्^०, नारायण^०,
 निर्वाण^०, निर्विकल्प^०, निस्त्रैयुष्य^०
 पञ्चन्^०, परम^०, परमात्मन्^०,
 पर्वतेश^०, पाणि^०, प्र^०, प्रशामेधा^०,
 प्रति^०, प्रथम^०, प्रोष्ठ^०, १ब्रह्मन्^०,
 ब्रह्मलोक^०, ब्रह्मसूत्र^०, १भद्र^०, भव-
 भयमुक्त^०, १भाव^०, मद्^०, मन्त्र^०,
 महर्^०, महाज्ञान^०, महानन्द^०,
 महावाक्य^०, महाविराज्^०, मात्रा-
 लिङ्ग^०, मामक^०, रक्तसूक्त^०, १राम^०,
 लब्ध^०, वट^०, १वर्ण^०, १वर्ण^०,
 विरिधि^०, विष्णु^०, वैकुण्ठ^०,
 शान्ति^०, शिक्शाकि^०, वन>धा^०
 पप्^०, संविद्^०, १सत्य^०, सप्तन्^०,
 सर्वातीत^०, सर्वाभीष्ट^०, सायुज्य^०,
 सीता^०, सुप्त^०, सुपुष्टि^०, स्तन^०,
 स्व^०, स्वप्रकाश^०, स्वाहा^०
 पद्-द्वय- निवारस^०
 १पद्(वि>)वी- कालपुत्र^०,
 १ब्रह्मन्^०, मत्सायुज्य^०
 पदा(द-अ)न्तर- स्थान^०
 पदा(द-अ)र्थ- अन्तद्^० घटपटा-
 दि^०, जगज्जाल^०, तादृश^०, पूज्य^०,
 भूत^०, विरमृत^०, घप्^०, घोडशन्^०,

सर्व^०
 + पदार्थै(य-ए)रु- दृढाभ्यस्त^०
 पदन- प्र^०
 + पद्य अभि^०, उपसम्^०, प्र^०, प्रति^०,
 सम्^०, समुद्^०
 + पद्य- गय^०, विष्णु^०
 + पद्यत्- वि^०
 + पद्यमान- अति^०, अनिसम्^०, आ^०,
 उद्^०, प्र^०, प्रति^०, प्रत्या^०, सम्^०,
 समुद्^०
 + पद्य- अनुप्र^०, अभि^०, अभिसम्^०,
 आ^०, उद्^०, उप^०, निस्^०, प्र^०, वि^०,
 व्युद्^०, सम्^०, समुद्^०
 + पद्य-ग- सिद्ध^०
 + पद्यवद्- प्रति^०
 १पाद्-
 पाद्- ४अ^०, अक्षि^०, अधस्तन^०,
 अनन्त^०, अविद्या^०, अष्टन्^०, अस्-
 ल्य^०, आ^०, आनन्द^०, उत्तान^०,
 उद्^०, ऊर्ध्व^०, एक^०, २कति^०, २क-
 र^०, गुरु^०, चतुर^०, चतुर्थ^०, जानु^०,
 जिह्वा^०, तुरीय^०, त्रि^०, १दक्षिण^०,
 दक्षिणैतर^०, नाभि^०, पञ्चन्^०,
 पत्रास्तरित^०, १पद्य^०, पांसु^०, पा-
 णि^०, २पासर्व^०, पृथिवी^०, प्रथम^०,
 बाहु^०, ब्रह्मविद्या^०, भूतादि^०, मद्^०
 १मध्यम^०, महापाताल^०, महेश्वर^०
 १वाच्^०, २वाम^०, विद्या^०, विश्वत-
 स्^०, शिरस्^०, तिरस्^०, ६स^०, नम्^०
 १सव्य^०, सुविद्या^०, २हस्त^०, १हृद्^०
 २पद्- अनुदात्तोदात्तदि^०, अ-
 ष्टन्^०, एक^०, एकादशन्^०, चतुर^०,
 त्रि^०, द्वि^०, नवन्^०
 + पद्-ध(<ह)ति- दुःख^०,
 निर्वाणप्राप्ति^०
 २पाद्- अष्टन्^०, अष्टाक्षर^०,
 उभय^०, एक^०, एकादशन्^०, चतुर^०,
 त्रि^०, द्वि^०, नवन्^०, विरवतस्^०,
 २व्याघ्र^०, सहस्र^०

पाद-घतुष्टय- २वेद^०
 पाद-तल-, > पादतल-मस्त-
 क- आ^०
 पाद-त्रय- उपरितन^०, विद्यान्...
 ख्य^०
 पाद-प- ४कल्प^०, विसुक्ति^०,
 संसार^०, संकल्प^०
 + पाद-पद्य- ध्वजवज्रा***त^०
 पाद-पर्यन्त- जान्वादि^०
 + पाद-मस्तक- आ^०
 + पाद-युगल त्वद्^०
 + पाद-विभूति-वैकुण्ठ-अनदि^०
 + पाद-शीर्ष- आ^०
 + पाद-शूल- अक्षरशूल^०, शि-
 रःशूल^०
 + पादा(द-अ)जुली-शूल-
 शिरःशूल^०
 + पादा(द-अ)हुम्भ-द्वय- आस^०
 + पादा(द-अ)म्भोरुह-हृन्ह-
 यद्^०
 पाद्-> पाद्(क>)का- तद्^०,
 १त्रिदण्ड^०
 १पाद्य-
 + पाद्यक- उद्दु^०, १कुत्रा^०
 + पाद्यन- प्रति^०
 + पाद्या- उपसम्^०, सम्^०
 + पादित- उद्^०, प्रति^०, सम्^०
 + पाद्य आ^०, उद्^०, सम्^०
 + २पाद्य- निस्^०, समुद्^०
 + पाद्यमान- उद्^०, प्रति^०
 १पञ- अक्षि^०, अभय^०, अष्टदल^०,
 अष्टाक्षरी^०, अष्टादशदल^०, कौस्तु-
 भ^०, चतुर्दशदल^०, चतुर्विंशति-
 दल^०, चत्वारिंशदल^०, तद्^०, दश-
 दल^०, २द्वात्रिंशदल^०, २द्वापराद-
 ल^०, नवदल^०, पञ्चाशदल^०, पीठ^०
 पञ्चाश^०, पाद्^०, भूतहृद्^०, भूमि^०,
 मध्य^०, महत्^०, १वज्र^०, मत्वादि-
 त्यकला^०, १शङ्ख^०, १राह^०,

a) कर्तरी आने वा कृत्। b) यत्रा. द.। c) ग् (पृ४८०) यनि. संख्यानिर्देशः द.। d) ग् (पृ४८१) यनि. संख्यानिर्देशः द.।

शतदत्^०, शरीर^०, पदत्रिसहस्र^०,
पद्दत्^०, २पोड्यादत्^०, सहस्र-
दत्^०, सुदर्शन^०, १हृद्^०

पद्म-ज-^० त्र्यस्र^०

*पद्म-पाद- १भद्र^०

पद्म-राग- १वज्र^०

२पद्म, द्या- हरि^०

*पद्मा(द्या-आ)स्य-वक्षस्- -क्षाः
पा ७, ७५.

३पद्म- २स्वस्तिक^०

१पद्म-क-^०

३पद्मा(द्या-आ)सन- वद^०

४पद्म- धर्म^०, महत्^०

२पद्म-क-^० - कर्कोटक^०, दैत्य^०, महत्^०

५पद्म- गपू, ५४८२ द्र.

*६पद्म- महत्^०

पद्य, पद्य- पद्यन्- पद्यमान- √पद्
(परि.) द्र.

+ √पद्, > पन्थु- वि^०

पनस- एला^०

*पन्थिन्- परि^०

पद्म- पद्मग- पद्मवन्- √पद्(परि.) द्र.

+ √पद्, > पान्त- आ^०

पयस्- गो^०, पुष्य^०, २सुगन्ध^०

पायस- सर्पिस^०, सिद्धान^०

पयस-विन्- सु^०

पयो-घर- पीनवृत्^०

*पयोघर-सुरम- द्दोभी...त^०

*पयो-राति- परशद्म^०

१पर, रा-^० - राः सउ ९, ४५; - रम्

ते २, ९; गोपू १६. [१-
अतिरोषा, अद्वितीय^०, अद्वैत-
निष्ठा^०, अनन्य^०, अनुबन्ध^०,
अन्त-स्पसंविन्मात्र^०, अक्षपान^०,
अक्षादत्^०, अन्य^०, अन्यया-
चार^०, अपरोक्षानुभव^०, अशुभ-
क...न^०, असंभाषण^०, आत्मन्^०,
आहार^०, उपनाम^०, उपदेिन^०,

एकत्राज्ञादन^०, एकत्राज्ञादान^०,

१काम^०, १कालदराड^०, किंचिद्वि-
निमय^०, कयविक्रय^०, क्रीडा^०,

१चित्^०, चिन्ता^०, ३जाति^०, १ज्ञान^०

ज्ञानयोग^०, तत्क्रीडा^०, तत्सेवा^०,

तत्स्वरूपध्यान^०, तद्^०, तद्बयान^०,

तद्ब्रह्मोपनिषद्^०, तपोनिष्ठा^०, दधि-
मयनक्रिया^०, दास्य^०, ध्यानयोग^०,

नामसंकीर्तन^०, वृत्त्य^०, परम्^०, पर-
मन्त्रप...टक^०, परात्^०, पशुपराश^०,

पिठरख...धन^०, पितृमा...न^०,

प्रकृति^०, पणवकीर्तन^०, प्रत्यगभि-
न्न^०, प्राणायाम^०, चद्विद्येति^०, १म-
हान^०, मन्त्रनिष्ठा^०, ६ द्वाप्रण...न^०,

२भक्ति^०, मसोद्भूतन^०, ३भावना^०

भैक्षान^०, १भोग^०, मद्^०, मद्रसूया^०

महाक्रीडा^०, माया^०, यद्^०, योग-
ज्ञान^०, विचार^०, विसर्जन^०, विहार^०

विहारक्रीडा^०, व्यक्तान्वय^०, व्यन-
हार^०, व्याख्यान^०, शुभाशु...न^०,

श्रीकृष्णार्थ्य^०, संविन्मात्र^०, १स-
त्य^०, सन्मानत्रैक^०, सेवा^०, स्वल्पा-
नुसंधान^०, स्वर्ग^०, १स्वाभ्रमाचार^०

स्वेच्छाचार^०]

+ पर-कटक- परमन्त्र^०

+ पर-कृत-> *परकृत-दुष्टग्रह-

मन्त्र-तन्त्रो(न्त्र-उ)चादिनी-

प्रेरित- अरिष्टकारिणी^०

*परकृत-सर्वो(र्वे-उ)पद्रव- अ-

रिष्टकारिणी^०

पर-ज्योतिस्- अपरिच्छिन्ना...न्त^०,

प्रधानन्द^०

पर-तव- रोधित^०

पर-तन्त्र- परमन्त्र^०, परमन्त्रयन्त्र^०

पर-ता- आत्मता^०

*पर-नृत- परमन्त्र^०

पर-देवता- -ता मा २८.

*पर-धन्वा(न-ध)पहरण- शमस्त-

पा...सक^०

पर-ब्रह्मन्- अखण्ड...ण^०, अद्वय^०

अद्वैतप...क्षण^०, तदाकाराका-

रित^०, नारायण^०, नारायणशब्द^०,

१नित्य^०, निरतिशयप...ण^०,

निरतिशयाद्वैत...ण^०, परमानन्द-

लक्षण^०, २प्रश्न^०, वाचामगो...

२. शिवगायत्री^०, शुद्धाद्वै...ण^०,

श्रीरामतात्रैक^०, सर्वपरिपू...ण^०

*पर-भाग- रात्रि^०

*पर-भूत- परमन्त्रयन्त्र^०

परं-परा- अनादि^०, १अन्ध^०, तद्^०,

निरन्तरसमाधि^०, बोधानन्दवि-

मान^०, भूत^०, विमान^०, शिष्य^०,

सर्ग^०, सोपान^०

*पर-यन्त्र- परमन्त्र^०

पर-यस्तु- सच्चिदानन्दस्वरूप^०

परस्पर- प्रकृति...त^०

*परस्पर-गन्धा(न्ध-आ)द्य-

ललामभूत^०

*परस्पर-वस्तु- ज्योतिरना...त^०

*परस्पर-संभूत- ४अ^०

*परस्पर-स्व-मपांदा- क-दुक-

लीला^०

*परा(र-अ)क...तत्त^०

परा(र-आ)काश- १आशा^०

*परा-काष्ठा- अनन्यभक्ति^०, धृत^०

परात् > परात्-पर- > परात्परा-

(र-आ)तीत- १चित्^०

*परा(र-अ)नन्त-निरत्य-सुक्त- चि-

द्रुप^०

परा(र-आ)नन्द- १चिन्^०, १सत्^०

*परा(र-अ)न्त- ४अ^०

*परा(र-अ)क्ष- १रति^०

*परा(र-अ)पर-रहस्व- ६स^०

परा(र-अ)यण- कामबोध^०, कृष्ण-

ध्यान^०, चान्द्रायण^०, चिरसमा...

न^०, जपध्यान^०, तद्^०, ध्यानयोग^०,

अ) गू. (५४८२) राहृत् यति. शोधः द. 1. b) गू. (५४८२) यति. संख्यानिर्देशः द. 1. c) म्यु.?

=निर्दिशो- 1. d) वैप र. द. 1. e) गू. (५४८३) यति. संख्यानिर्देशः द. 1. f) मा ८, ३६. g) व^० दति अन्ता. 1.

h) मान. अना. 1. j) तान्त्रि. अना. 1. j) अना. द. 1. = १प्रमन्त्र-उपनिषदो- 1.

प्रणवै...न^०, प्रत्याहार^०, प्राणा-
याम^०, भक्तप्राण^०, गद्^०, १मनु^०,
महाध्यान^०, १मोक्ष^०, २योग^०,
योगनिद्रा^०, रामसेवा^०, शिख-
दर^०, शुद्धध्यान^०, २श्रुति^०, १स-
त्य^०, स्वान्मलाम^०
परा(र-अ)धे-→^१पराधे-र- संह-
त^०, मंघात^०
२पर-√पू (परि.) द्र.
परम,मा- अनन्त^०, उत्पत्ति^०, कामो-
पभोग^०, चिन्मात्र^०, १नित्य^०,
निरतिशयानन्दमय^०, निर्वाण^०,
मत्कर्मन्^०, मद्^०, मदेक^०, सहस्र^०,
सौभाग्य^०
⁺परम-करण-भूत- उदयस्थिति-
...जात^०
परम-तरव- अबाधित^०, परममूर्ति^०
⁺परमतरव-विभूति- विविधवि-
चित्रानन्त^०
⁺परम-तेजस्- अमित^०
⁺परमतेजः-पुञ्ज- परममूर्ति^०
⁺परम-सुति- सर्वोत्कृष्ट^०
परम-धामन्- श्री^०
परम-मङ्गल- २निरतिशयानन्द^०
⁺परम-महत्त्व- परमाणु^०
परम-मूर्ति- अनन्त^०, निरतिशयपर-
मानन्द^०, निरतिशयब्रह्मानन्द^०
परम-योगिन्- तादृश^०
⁺परम-विभव- परमतरव^०
⁺परम-विभूति- विविधवि...न्त^०
⁺परम-विद्यास- अनन्तान...मनी^०
⁺परमविद्यास-विशेष- ब्रह्मते-
जन्^०
परम-वैकुण्ठ- महानारायणमय^०
परम-शिव- शुद्ध^०
परम-हंस- ईशावास्य^०, कुडी-
चक^०, हंस^०
परमहंस-परिब्राजक^०- २प्रश्न^०

परमा(म-आ)ज्ञा- परिपूर्ण^०
परमा(म-अणु- भूयम्भस्^०
परमा(म-आ)त्मन्- ४अ^०, आत्मन्^०,
१केवल^०, जगन्^०, जीव^०, १जी-
वात्मन्^०, द्वादशान्तस्थित^०, धी^०,
श्रीमन्नारायण^०
परमा(त्मन्)किंका- परज्यो-
तिस^०
परमा(म-आ)नन्द- अखण्ड^०,
अखण्ड^०, अद्वितीय^०, अद्वैत^०,
अमिताप...त^०, अलौकिक^०,
निखिल^०, निरतिशय^०, निरतिश-
य^०, शुन्दारक^०, शुद्ध^०, शुद्धबो-
ध^०, शुद्धाद्वैत^०, १सत्^०, सर्वपरि-
पूर्ण^०, सर्वाद्वैत^०
⁺परमानन्द-पारावार- निरति-
शयानन्त^०
⁺परमानन्द-विभूति- अनन्त^०
⁺परमानन्द-शाक्ति- चिदभि-
स्वरूप^०
⁺परमानन्द-शुद्ध-बोध-स्वरू-
प- निरतिशयदि...कार^०
⁺परमानन्द-समुद्र- अनन्त^०
⁺परमानन्द(न्द-अ)मृत-रस-
अनन्त^०
परमा(म-अ)धे- सकलवेदा...त^०
पारमार्थिक-→⁺पारमार्थिक-
जीव- अभ्यङ्गलेशा...त^०
परमे(म-ई)श्वर- अघोर^०, १केव-
ल^०, १सूर्य^०
परशु- आपतकरुज^०, खण्ड^०
परशु-राम- २मत्स्य^०
⁺परशु-हरिण- ६स^०
परस्-→ पर(रस्-अ)क्ष- ४अ^०,
प्राच्^०
पराक- १पर- (परि.) द्र.
⁺परा/कम्→परा-कम- १बल^०,
शिवतुल्य^०

पराम- उपस्थित^०, शुद्धपुष्प^०, १पत्र^०,
पुष्प^०, ६स^०
परा(रा/अ)क्ष, ङ्क्ष→परा(रा-अ)च्,
ङ्क्ष- तद्^०
पराङ्-मुल- अर्थब्रीपुत्र^०, परस्त्रीपुत्र^०
प्रापयिक^०, विग्ली^०, सर्वविषय^०
परा/जि→परा-जय- इन्द्र^०
⁺परा-जित-, ⁺परा-जिष्णु- ४अ^०
परा/मृश→परा-मश- १इतर^०,
ऐक्य^०, संस्कार^०
परा-मृष्ट- ४अ^०
परा/सू (प्रेरणे), परासुव मज ९,
७५^०
परि^० पा २, २.
परि/क्लिश्→परि-क्लेश- २योग^०
परि/क्षि(वेय)→परि-क्षय-चेतस्^०,
तद्विकल्प^०
परि-श्रीग- ४अ^०, चिरकाल^०
⁺परि/क्षिप्→परि-क्षिप्त- पुण्य-
माला^०
⁺परि/खिद्→परि-खेद- ४अ^०
परि/ग्रह→परि-ग्रह- २हः नाप ४,
५^०, [०]ह- ४अ^०, अशेष^०, आ-
स्था, नित्^०, यद्^०, विवर्णजी...
न^०, सर्व^०, सीतापाणि^०, स्वादु^०
परि/चर→⁺परि-चरण- अग्नि^०
⁺परि-चारक- मूल्य^०
परिचारिका- दासी^०
⁺परि-चिह्न→परिचिह्नित- बाहु-
मूल^०
⁺परि/च्छिद्→परि-च्छद- अन्तः-
पुर^०, द्रोन्द्रिय^०
⁺परि-च्छन्न- १चित्तवर्ण^०
परि/च्छिद्→⁺पति-च्छित्ति-
असंनिहृद्यार्थ^०
परि-च्छिन्न- ४अ^०, सगुण^०
परि-च्छेद- त्रि^०, देशकालवस्तु^०
⁺परि-च्छेय- ४अ^०

a) ब्रह्म. द्र. । = तदाख्योपनिषद्विशेष- , संन्यासिभेदविशेष- । b) ऋ ५, ८२, ५ । c) वैतु. पाटी. उत्तरेण
क्रिय. संबन्ध इति । d) तु. गद्. ५७०० ।

परि-जन- १नित्य°

*परि/जृ>परि-जर्जर- विषय...त्°

परि/ज्ञा>परि-ज्ञात- ४अ°

परि-ज्ञान- ४अ°, अन्यविद्या°, वि-
देकत्व°, ज्ञाप्रतिद्वान्त°, १मङ्गल°,
ब्रह्मविद्या°, मत्स्वरूप°, १रूप°,
स्वात्मन्°परि/ण(<न)म्>परि-णत- चतुर-
शीतलक्ष्योनि°परि-णाम- ४अ°, एकाप्रता°, गुण°,
जात्यन्तर°, त्रिगुणभेद°, धर्मल-
क्षणावस्था°, निरोध°, प्रियत्व°,
समाधि°*परिणाम-शूल^{१६}- अज्ञशूल°°

*परि-णामिद्- १दृढ°

*परि/ण(<न)ह्>परि-णाह- द्वि-
तीय°, प्रथम°, २मज°, सहस्रयो-
जन°

*परि/तप्>परि-ताप- ह्राद°

परि/त्यज्>परि-त्यक्त- क्षौरकर्म-
न्°, १सर्वकर्मन्°

परि-त्यज्य ४अ°

परि-त्याग- असत्कृत्य°, ज्ञेयवस्तु°,
देहदे°क°, पथरूप°, पडवस्था°,
सर्वधर्म°, सर्वमात्र°, सर्ववस्तु°परि-त्यागिन्- ४अ°, अन्तःसङ्ग°,
त्यागादान°, श्रुमारुम°, सर्व°,
१सर्वकर्मन्°, सर्वात्मन्°

*परि-त्याग्य- ४अ°

परि/त्रै>त्रा>परि-त्राण- गोत्राण-
ण°

परि/दृष्ट>परि-दृष्ट- प्रत्येक°

परि/धा>परि-धान- दलयम°

परि-धि- तामयुष्यं°, पतागोदधृत°,
पुनाराग°, रत्न°, रथामादिरत्नय°*परि-धामन्- > *परिधाम-
शूल^{१६} अज्ञशूल°°*परि-नि(ग्)>भ्र/चल्>परि-
निष्-चर- स्वभाव°परि/पच्>परि-पक्- परम्°, मनो-
न्मन्यवस्था°परि-पाक- सकलवेद***त°, १सक्त-
मन्°

परि-पाल->*/परिपालि>+परि-

पालक- अखिलापवर्ग°, अण्ड°,
अनन्त°, आनन्द°, भगवद...ध°

मूलविद्याण्ड°, सकलजगत्°

*परिपालित- विष्वक्सेन°

परि/पीड्>डि>परि-पीडित-

- अन्त्योन्यवायु°

*परि/पू>परि-पूत- रक्षुत्°

परि/पूज्>भि>+परि-पूजित-

- त्रैलोक्य°

परि/पू>पुड>+परि-पूक- सर्वा-

शा°

परि-पूर्ण- अखण्ड°, अखण्डलक्ष-
ण°, अभिलि°, अद्वैत°°, अप्रमे-
य°°, १नित्य°, १नित्य°, रस-
लम्पट°, सच्चित्सुख°, सर्व°, सर्व-

निरामय°, सर्वयुध°

परि/पूर्ण(र्ण-आ)नन्द- अव्यक्त°

परि/पूर्णानन्द-दिश्य-सौदा-

मि(म)नी-निचय- अनन्त°

*परि-प्रा(प्र/आ)प्>परिप्रा(प्र/आ)-

स- सत्वरूप°

परि/प्लु>*परि-प्लुज- वासनाम्बु°

*परि-पाण-> परिपाण-शूल^{१६}-
अज्ञशूल°°

परि/भाप्>परि-भा(व)पा-

सद्°, पूज्य...क्ति°

परि/भ्रंज्>*परि-भ्रंस- १स्वरूप°

परि-भ्रष्ट- सत्यशौच°

परि/भ्रम्>*परि-भ्रम- मननादि°

*परि-भण्डल- हल°

परि/मा(माने)>परि-माण- १अणु°

आहार°

परि-मित- ४अ°, मासमे***र°

*परि-मेघ- ४अ°

परि/मार्ग>गिं°

परि/मुह्>मोहि>+परि-मोहित-

माया°

परि/रक्ष्>+परि-रक्षण- मौलिरथ-

कुम्भ°

परि/वृ(आच्छादने),>वारि>परि-

वार- ६स°

परि-वारित- दिव्यस्त्री°, महाभुज°

परि-वृत्- चीरचर्मवलकल°, नयनो-

...र°°, नादयज्ञयोगिनी°, पीठ-

...ता°, भूतवेताल°, सहस्रपरिम°

परि/वृज्>*परि-वर्जन- आस्था°

परि/वृत्>*परि-वर्तक- पडध्वन्°

*परि-वृत्- यज्ञ°

*व(रि)री-वर्त- १पार्थ°

*परि/वृह्>परि-वृढ- ब्रवण°

परि/वोद्>परि-वेष्टित- सहस्रा-

नन्दप्राकार°

परि/व्रज्>परि-व्रज्- परमहंस°

*परि-व्रान^{१६}- तुरीयातीत°°

परि-व्रजक- परमहंस°

परि/शिप्>परि-शेष- ४अ°

*परि/शील्>परि-शीलित- शो-

भायमानलवङ्गलता°

परि/शुष्>परि-शुद्ध- २स्वृति°

परि/श्रम्>*परि-श्रम- सकलवि-

द्या°

परि/श्रि>*परि-श्रय- ६स°

परि-(सु)प्/छ्>परि-च्छुत- शु°

*परि-सहस्र- सप्तकोटि°

परि/स्पन्द्>परि-स्पन्द- ज्वाल-

जाल°, प्राण°, सूर्यांतोक्त°, ख°

परि/हन्>परि-घ- ब्रह्मविद्यानन्त°

शुद्धानन्द°, गुदरान°

परि/ह्>*परि-हार- अनुज्ञा°, अ-

भङ्ग°

*परि-हार्य- ४अ°

परी(रि/इ(गती))>*परी(रि-इ)-
दुःखमाल°, पुण्यपराण°

पर्या(रि-आ)प- जीव°
 परी(रि/ई)ञ् > परी(रि-ईञ्) > -
 क्षा- मणि°, लता°
 परी-वर्त- परि/वृत् (परि.) द्व.
 पर्क- √पृच् (परि.) द्व.
 पर्जन्य- रजेत्°
 पर्य- अष्टन्°, इत्तु°, उत्तानभाग°,
 पुष्कर°, १ब्रह्मन्°, सृष्ट°, रैक°,
 वक्षन्°, सु°
 +पर्ण-पुट- नाना°
 +पर्ण-फल- शीर्षा°
 पर्यङ्क- > +पर्यङ्क-समासीन- तद्°
 +पर्य(रि-अ)न्त- ४अ°, अतुष्टि°,
 अनुभव°, अल्लुङ्घि°, अशीति°,
 आचाण्डालादि°, आजानुकटि°,
 आजानुपाद°, १आदि°, आ-
 ब्रह्मस्तम्भ°, उपाधि°, कण्ठ°,
 कौट°, केवलसिद्धि°, केश°, चतुः-
 समुद्र°, जानु°, त्रिचतुरिन्त्र...
 मास°, देहपतन°, द्वादशाङ्गुल°,
 धनुःप्रमाण°, पद्ययोजन°, पद्य-
 विशक्तिवत्सर°, परार्ध°, पाद°,
 १पायु°, २पार°, पिपीलिका°, प्रण-
 व°, प्रारब्धकर्मन्°, प्रारब्धक्षय°,
 प्रारब्धप्रति...श°, ब्रह्मरन्ध्र°,
 मण्डपस्तम्भ°, मस्तक°, मुहूर्त-
 द्वय°, मूर्धन्°, मूलाधार°, लोक°,
 यामाक्षि°, विशेषभूत°, सत्तासा-
 मान्य°, सहस्रयुग°, सूक्ष्म°, स-
 ष्टि°, स्राम्°
 पर्य(रि-अ)च/सो>सा > +पर्यच-
 सान- अलित°
 पर्या(रि/अ)प > पर्या(रि-आ)स-
 ४अ°
 पर्यत- अनन्त°, आनन्द°, गिरि°,
 तद्वि°, तद्°, तेजस्°, दिव्यते-
 जत्°, १फल°, २यव°, १लयण°,

वृक्ष°, १वैखानस°, श्री°, ६स°,
 संजीवन°
 पर्वन्- गुण°, पद्यन्°, पौपयूषिमा°,
 सर्व°
 +पर्व(क) १सम°
 पर्वु- > १पार्व- २कन्द°, १त्वच्°,°
 २दक्ष°, १दक्षिण°, घृष्टयन्°,°
 शिरस्°, २पटकोण°, सीवर्ना°,
 सुपुत्रा°
 +पार्व-शूल- शिरःशूल°
 +पर्वद्- > पार्वद्- वैकुण्ठ°
 २पल- -लानि निह २, १. [ल-
 अष्टक°, द्वादशक°, द्वादशन्°]
 +पल-संख्यान- तद्°
 पला(ला < रा/अ)य > +पला-
 (ला-अ)धन- ४अ°
 पलाल- > +पालाल- पलाशाङ्कुरज°
 पलाश- अष्टन्°, पुष्कर°
 +पलास-वन- मयुरावन°
 पलित- वली°
 पल्लव- पाणि°, पुष्प°, वासन्ती°,
 शाखा°, सर्व°, रहस्त°
 +पल्लव- जन्मन्°
 √/पश् अनु°, अभि°, अव°, परि°,
 प्र°, प्रति°, वि°, सम्°
 पश्यत्- -इयन् मैत्रि७, ११° [ल-
 ४अ°, अनु°, प्र°, सम्°]
 १पश्यन्ती- > २पश्यन्ती-
 परा°
 १पशु- -शुभिः कौ२, ५° [ल- ४अ°,
 इन्द्रिय°, ग्राम्याण्यव°, १धन°,°
 नर°, १पुत्र°, १पुत्र°, स्वभाव°]
 पशु-पति- मुयनाधिपति°
 पाशुपत- २प्रश्न°
 पश्चात्- > पश्चिम- आपार°, सुपुत्रा°
 √/पा(पाने) > विपार अनु°, उ१°, प्र°,
 सम्°

२प- आज्योष्मन्°, २ऊष्मन्°,
 कच्छ°, कमण्डलुदक°, द्वि°, पाद°
 पूय°, फेन°, मय°, सुरा°, १सोम°
 +१पा- प्र°
 पान- अति > ती°, अनु°, अन्न°,
 अपेय°, आ°, उद°, उदक°, केदा-
 रोदक°, चौर°, दीक्षासंतोष°,
 प्रया°, श्वाभृत°, भक्ष्य°, मय°,
 रसायन्°, संतोषाभृत°, सहस्र°,
 सुरा°, १सोम°, स्त्री°, ज्ञान°
 +पायिन्, नी- ४अ°, ४रक्त°, सुरा°,
 सोमेक°
 १पायु- अन्तःकरण°, पाद°,
 पाद°, पृथिवी°, मस्तक°,
 १वाच्°, शिरस्°
 +पायु-शूल- अक्षरशूल°
 विपास, सा- ४अ°, अशना°, अश-
 नाया°, १काम°, १चुष्°,
 जरा°
 १पीत- अशित°, पूर्व°
 पीयमान- उप°, सम्°
 +पेय- ४अ°, राय°, भक्ष्य°, वाज°
 +पेय-क- पान°
 √/पा(रत्तये) अधि°, परि°, सम्°
 ३प- अधि°, गण°, गो°, द्वार°, वृ°,
 १भू°, मही°
 +२पा- अधि°, गो°
 पाल- अनु°, अभि°, अवनि°,
 क्षेत्र°, गो°, दिश°, द्वार°, धर्म°,
 परि°, १पशु°, पृथिवी°, प्रणत°,
 प्रति°, १भू°, भूत°, मही°, लोक°
 √/पालि > पालक- इन्द्रिय°,
 क्षेत्र°, दिश°, लोक°, सर्व°,
 रथरथल°
 पालय- ४अ°
 +पालिन्- क्षेत्र°
 √/पा(°वधा) > ४प- २मगट°

b) 'परिप्लानोऽन्ताय' इति ह्यत्र प्राप्त. विर. च (पैतृ. सन्त्यत्र 'परिप्लानोऽन्तः' इति ह्यत्रा प्राग. एव
 'रामनि नाप.)। b) श्नु. = तदाग-। c) 'पश्यः' इति ङां ७, २६, २। d) आन., अन्त्याः गा. अन्त.। e) भागे
 कर्मण्यपि कश्चिन् वा इत् । f) पा. अर्थाः ।

१पा- √पा (पाने) परि. द्र.
 २पा- √पा (रक्षणे) परि. द्र.
 पांसु- पद, शक्रेण°
 पाक्व- √पृ (परि.) द्र.
 *पाञ्चालिका- मांस°
 पाटक- √पट् (परि.) द्र.
 *पाटलीपुत्र- > *पाटलीपुत्र-रथ-
 क्षुप्रस्थ°

पाटि- पाटित- पाठ्य √पट् (परि.) द्र.
 पाठ- पाठ- √पट् (परि.) द्र.
 पाणि- ४अ°, अक्षि°, उपहार°, जिह्वा°,
 धनुस्°, पृथिवी°, १वज्र°,
 १वाच्°, २वाम°, विश्वतस्°,
 वेष्टित°, शङ्खचक्रगदा°, २रात्र°,
 शिरस्°, शूल°, सवनुस्°, समिष्°,
 सीता°

*पाणि-पद- ४अ°
 *पाणि-पल्लव- मनोस°
 पाणि-पाद्- ४अ°, कुरवकरसाक्षित°
 सवेतस्°
 पाणिपादा(द-आदि- स्-
 १पाण्डुर-> २पाण्डुर- भा°, वैरो-
 चन°°

१पाण्डु- चम्पक°
 १पाण्डुर-> २पाण्डुर- भा°
 पातक- अन्य°, अशेष°, उप°, कर्ण-
 रोमादिङ्गल°, कायिक...स°, गो-
 दत्यादि°, अन्नशल्यादि°, अन्न-
 हत्याशुभान्तरासौस्यगुण्यन्व-
 गिन्°, अन्नश्ल्याशुभान्तरासौस्य-
 यगुदरार...ग°, महत्°, सर्व°
 *पातको(क-उ)पातक-महापात-
 क- सप्तम°

पातन- √पत् (गती) परि. द्र.
 पाताल- अतल°, मद्र°, रणान्त°,
 सप्त°°
 पातिन्- √पत् (गती) परि. द्र.
 पाय- ४भ°, अर्ध°, अलापु°, अला-
 प्यादि°, अष्ट°, आपार°, आम°,
 आम्य°, आहार°, उच्छिद्य°, उद°,
 उदर°, २कर°, कांस्य°, क्षेत्र°, ताम्र-
 कांस्य°, तालखजूरा°, १त्रिदण्ड°°
 दाह°, देश°, पद्याभूत°, पाणि°,
 पावाप्या...न°, पूर्ण°, पूर्वोक्त°,
 १फल°, भिन्ना°, भुक्त°, मृद्°,
 मृदावला...ण°, यज्ञ°, वस्तु°,
 १शङ्ख°, ६स°, १सत्°, सर्वलोक-
 स्तुति°, सुवर्ण°, लुकनुवादि°

१-२पाद्-, पादक-, पादन-, *पाद्-
 या-, पादित-, पाद्य, १-२पाद्य-,
 पाद्यमान- √पद् (परि.) द्र.
 पान्त- √पम् (परि.) द्र.
 १पाप- -पम् रुजा ४९७. [°प- ४अ°,
 अशेष°, १काम°, कृत°, गुरु°,
 जन्मन्°, दग्ध°, दस्य°, १पुरय°,
 पूत°, अन्नहत्यादि°, मद्र°, लघु°,
 वि°, विधूत°, व्याधि°, समस्त°,
 सर्व°, सर्वधर्मपरित्याग°
 २पाप-> पापिष्ठ- महापातक°.
 *पाप-काशि(न्->)नी-, पाप-कृत्-,
 *पाप-विद्- ४अ°
 पाविन्- -वी पद् १५०:१९°.
 *पापौ(प-श्रो) २- अशेष°
 पापमन्- अप°, अपहृत°, महत्°, वि°,
 सर्व°

पायिन्- √पा (पाने) परि. द्र.
 १पाय- √पृ (परि.) द्र.
 २पाय- √पृ (परि.) द्र.
 पारिजात- भात्र°, तुलसी°, मन्द-
 र°, २तुगन्ध°
 पारीष- √पृ (परि.) द्र.
 पार्य(त->)ती- इरा°
 २पाय्ये- -श्वीयो: जाद ३,६,११. [°श्व-
 अधर्°, उभय°, केण°, तद्°,
 २दस°, नाभि°, पाद°, पृष्ठ°,
 मुष्टि°, मेहन°, २धाम°, २कन्ध°,
 १हृद्°]

पाय्ये- -श्वीयो: जाद ३,६,११. [°श्व-
 अधर्°, उभय°, केण°, तद्°,
 २दस°, नाभि°, पाद°, पृष्ठ°,
 मुष्टि°, मेहन°, २धाम°, २कन्ध°,
 १हृद्°]

पाय्ये- -श्वीयो: जाद ३,६,११. [°श्व-
 अधर्°, उभय°, केण°, तद्°,
 २दस°, नाभि°, पाद°, पृष्ठ°,
 मुष्टि°, मेहन°, २धाम°, २कन्ध°,
 १हृद्°]

पाय्ये- -श्वीयो: जाद ३,६,११. [°श्व-
 अधर्°, उभय°, केण°, तद्°,
 २दस°, नाभि°, पाद°, पृष्ठ°,
 मुष्टि°, मेहन°, २धाम°, २कन्ध°,
 १हृद्°]

पाय्ये- -श्वीयो: जाद ३,६,११. [°श्व-
 अधर्°, उभय°, केण°, तद्°,
 २दस°, नाभि°, पाद°, पृष्ठ°,
 मुष्टि°, मेहन°, २धाम°, २कन्ध°,
 १हृद्°]

पाय्ये- -श्वीयो: जाद ३,६,११. [°श्व-
 अधर्°, उभय°, केण°, तद्°,
 २दस°, नाभि°, पाद°, पृष्ठ°,
 मुष्टि°, मेहन°, २धाम°, २कन्ध°,
 १हृद्°]

पाय्ये- -श्वीयो: जाद ३,६,११. [°श्व-
 अधर्°, उभय°, केण°, तद्°,
 २दस°, नाभि°, पाद°, पृष्ठ°,
 मुष्टि°, मेहन°, २धाम°, २कन्ध°,
 १हृद्°]

पाय्ये- -श्वीयो: जाद ३,६,११. [°श्व-
 अधर्°, उभय°, केण°, तद्°,
 २दस°, नाभि°, पाद°, पृष्ठ°,
 मुष्टि°, मेहन°, २धाम°, २कन्ध°,
 १हृद्°]

पालाल- पलाल- (परि.) द्र.
 पालिन्- √पा(रक्षणे) परि. द्र.
 पाश- १आशा°, उरग°, एक°, २काल°,
 केश°, छिन्न°, तत्त्वविचार°, तफ-
 लच्छिन्न°, दैत्य°, १पशु°, पाशु-
 पताल°, मायामोह°, सुदर°,
 १मृत्यु°, १वज्र°, विलीन°, सं-
 द्यति°, समस्तजन्मन्°, सर्व°, ब्रह्म°
 *पाश-बन्ध- अक्षी°

पाशुपाल्य- १पशु- द्र.
 पापाश- काष्ठ°, तरङ्ग°°
 पिक- कोकिल°, १भ्रमर°, १मयूर°,
 १शुक°

१पिङ्ग-> २पिङ्ग-> पिङ्गा(ङ-अ)च्-
 दरदेश°
 १पिङ्गल-> २पिङ्गल- एक°, कलहल°
 १कृष्ण°, वम्पक°, २हरित°
 ३पिङ्गल-> पैङ्गल- ईशावास्य°°
 धपिङ्गल(ल->)ला- इडा°
 *पिच्छ- १मयूर°

√पिण्ड(=बधा.)> पिण्ड- अजर-
 मर°, अयस्°, कृत°, तमस्°, तुल°,
 पलल°, मद्र°, मांस°, लघु°, २लो-
 हित°, राव°, शिरस्°, २सैन्धव°
 पिण्ड-क- गोमय°, बडिश°, १बाल°
 *पिण्ड-ज- अरजज°
 *पिण्ड-विशेष- परममूर्ति...ज°
 पिण्डी(क)/क-> पिण्डी-करण- भव-
 काश°
 *पिण्डी(एड-उ)दक-क्रिया-> य-
 लुप्त°

पिट्- ४अ°, अति°, अस्मद्°, आत्मन्°,
 फर्मन्°, १देव°, १देव°, १पत्°,
 १मनस्°, २मातृ°, सुरेश°, स्व°
 पितामह- अति°, आत्मन्°, आत्म-
 न्°, पित्र°, प्र°, लोक°, सर्वलोक°
 *पितामही- १मातृ°
 *पितृ(क)- जीवन्°
 *पितृ-हरया- समस्तपातत्रे...क°
 पित्त- अस्थि°, २गण्ड°, १गुहम°°

पित्त- अस्थि°, २गण्ड°, १गुहम°°

पित्त- अस्थि°, २गण्ड°, १गुहम°°

पित्त- अस्थि°, २गण्ड°, १गुहम°°

पित्त- अस्थि°, २गण्ड°, १गुहम°°

पित्त- अस्थि°, २गण्ड°, १गुहम°°

पित्त- अस्थि°, २गण्ड°, १गुहम°°

a) शु. १। b) अन्नाः शो. अरा.। c) निगा. अरा.। d) अन्नाः यो. अरा.।

वात°, विपु°
 +पित्त-ज्वर° अतिभयंकरज्वर°
 +पित्त-शूल° अन्नशूल°
 पि/धा>+पि-धान- ईपाच्छिद्र°,
 तोयाधार°
 पिपी(लक)>लिका- कीट°
 +पिपीलिका-पर्यन्त- ब्रह्मादि°
 पिप्पल- आम°
 +पैप्पल्य°- प्रियङ्गु°
 पिप्पला(ल-ध्र)द्र°- रनिदाष°
 पिशाच,ची- अरिष्टकारिणी...दि°,
 १अक्षर°, १आरा°, १काम°,
 गन्धर्व° दिग्भवादि°, प्रेत°,
 १चाल°, भूत°, मृत°, १मनस्°
 २यज्ञ°, यज्ञराजसभूतगण°
 +पिशाच-क- भूत°
 पिशाचि(रु)>नी- महत्°
 पिथुन->+पैथुन- ४अ°
 पैथुन्- केह°, हिंसा°
 ✓पिपु आ°, प्रति°
 पिष्ट- ६स°
 +पेपम् आ°
 पीठ- अक्धादिधी°, अमृत°, अष्टादश-
 र्, आकाश°, उष्णाय°, उद्रीया-
 ण°, उप°, १आकार°, १काम°,
 कामरूप°, चतुर°, जालधर°,
 तद्°, तेजस्°, जि°, निरालम्ब°,
 नैवेद्य°, पूजा°, पूर्णगिरि°, पूर्व°,
 यद्°, विन्दु°, मणि°, ३मत्स्य°,
 महत्°, २योग°, २रक्त°, रत्न°,
 २रमा°, वसुधा°, वैष्णव°, व्या-
 ख्या°, सर्व°, स्व°
 *पीठक>ठिका- मृदुमन्म°
 ✓पीड>दि आ°, उप°, नि°, निम्°,
 परि°, प्र°, सम्°
 पीडन- उप°, घ्राण°, चक्षु°, नि°
 पी(>)दा- प्र°
 पीडित- परि°, भार°

+पीड्य नि°, निम्°, प्र°, सम्°
 पीड्यमान- आ°
 रपीत->३पीत- १नील°, २रक्त°,
 शौच°, २हरित°
 +पीत-चन्द्रा(न्द्र-अ)र्ध- ललाटप-
 शेज्जसत्°
 पीता(त-अ)म्बर- २श्याम°
 पीयूष- अखण्डानन्द°
 पुंस्->पुंस- ४अ°, स्त्री°
 पुंस-पुस- स्त्री°
 +पुं-गव- द्विज°, नर°, मुनि°,
 २योगिन्°
 पुमस- स्त्री°
 पुह्व- अतु°
 पुच्छ°- कलमाप°, तद्°, १वज्र°,
 १विप°, शिरस्°
 +पुच्छ-पक्ष- ३पीत°
 +पुञ्ज- गुञ्जा°, तेजस्°, नाडी°, परमते-
 जस्°, १पुण्य°, प्रभा°, रजस्°,
 विद्युत्°
 +पुञ्जि(रु)>नी- सला°
 +पुंनाग°- आम°
 ✓पुट् सम्°
 पुट,टी- अक्षि°, अमीषोम°, अज-
 लि°, खुर°, चञ्चु°, त्रि°, त्रिरेका°,
 नासा°, नासिका°, पण्य°, सम्°
 पुटित- आदिकला°, एतत्पुटितमा-
 तुका°, एतद्°, कामकला°, तारा-
 द्वय°, २मातृका°, राक्षी°, राक्षि-
 कादय°, श्रीकला°, सम्°, संचो-
 धनद्वय°
 +✓पुण, >पुण- नि°
 १पुण्डरीक°- एक°, १सत्°, १इद°,
 हृदय°
 पुण्डरीका(क-अ)क्ष- हरि°
 २पुण्डरीक!- ऐरावत°
 १पुण्ड- ऊर्ध्व°, तिलक°, त्रि°, मध्य°,
 शुद्ध°

२-४पुण्ड- गृ- पृ ५१० द.
 ५पुण्ड->३पौण्ड->१पौण्ड-का-
 लिङ्क- अनन्त°
 १पुण्य- ४अ°, १काम°, स्त्रीण°,
 १पाप°, महत्°, शिवायतन°, सर्व°
 सर्ववेदपारायण°, सु°, सुख°,
 स्नान°
 २पुण्य- सु°
 +पुण्य-देव- -वः पा १०, २°.
 १पुण्य-लोक- अनेक°
 पुण्य-स्थल- अपूर्व°
 १पुण्य-कर्मन्- प्राच्°
 +पुण्य-पुञ्ज- अनेकजन्मानित°
 +पुण्य-लेख- धृत°
 पुण्या(रय-आ)दि- मृगु°
 १पुत्र,त्री- ४अ°, अग्नि°, अजात°,
 अग्नि° अथर्व°, अर्ध°, आग्नेयी°,
 आर्तमागी°, आलम्बायनी°,
 आलम्बी°, रक्षर°, उग्र°, उचध्य°
 औपस्वस्ती°, कख°, कलद्र°,
 काल्वी°, कात्यायनी°, कापी°,
 कार्शकेयी°, २काल°, कुन्ती°,
 कौरव्यायणी°, कौरिशिकी°, कौरि-
 की°, गुरुवि° नि°, गीतमा°, जा-
 त°, जायन्ती°, १ज्येष्ठ°, ज्येष्ठभा-
 यी°, तद्°, ३तपन°, दार°, १देव°,
 देवकी°, दुपद°, पत्नी°, १पयु°,
 २पाण्डु°, पाराशरी°, पित्रु°, पौति-
 मापी°, प्राचीनवोगी°, प्रास्नी°,
 बन्धु°, बहु°, १मन्त्र°, भारद्वाजी°
 भालुकी°, मृगु°, मद्°, माण्डका-
 यनी°, माण्डकी°, राजन्°, रापी-
 तरी°, वन्ध्या°, वात्सी°, वासु°,
 वाचांस्त्री°, विराच्°, वैदस्ती°,
 वैद्याप्रदी°, म्यास°, यदु°,
 शारिङ्गती°, शिला°, शीतो°,
 १सत्°, सांस्त्री°, सांजीवी°, १स्-
 त°, स्व°, २हित°

a) मृगु! । b) मृगु! = वृहद्विशोप- । c) गृ- (पृ ५१०) यनि- संख्याविदेशः दः । d) मृदु! = दिग्मन्त्र-
 विशोप- । e) पञ्चोत्तराभ्यां संभिरार्यः ।

पौत्र- १पुत्र°
 *पुत्र-जीवि(विक)क- २प्रवाल°
 *पुत्र-मित्र-कलत्र-ग्रन्था(न्यु-श्रा)-
 दि- स्व°
 *पु(त्रक>)त्रिका- वन°
 पुत्रिन्- ४अ°

पुनर(>)-> *पुनः-प्राप्ति- विस्मृ-
 तपदार्थ°
 *पुनर-आगमन- ५न°
 *पुनर-आचमन- १पाद्य°
 *पुनर-आवर्तन-, पुनर-आवृत्ति-,
 पुनर-जन्मन्- ४अ°
 पुनर-भव- ४अ°, ५न°

पुरंदर-, १-२पुरी- √पू (परि.) द.
 पुरीय- मूत्र°, वेद°

पुर-> पुरु-हृत- -तम् मउ २०, ३५°.

१पू(, > पू)रुय- -पः कुं २३, १° [प-
 अद्वैत°, अन्तर्°, अवर°, १आदि°
 आदित्यमण्डल°, आनन्द°, आ-
 नन्दविभूति°, आमुष्मिक°, उज्ज-
 म°, कारण°, २जल°, तद्°,
 तुला°, त्रि°, १देव°, परम°, परम-
 हंस°, २पुरय°, १पुराण°, प्रकृति°
 प्रति°, प्रधान°, १भद्रान्°, भुवन्°,
 भूत्°, भूभुव-सुवर्°, मण्डल°,
 महत्°, महाविद्यान्°, राजन्°, वि-
 भूति°, विराज्°, रवेद°, १सत्°,
 सत्त्वं°, सदाशिव°, सर्व°, सुदर्शन°
 सुवर्°, स्त्री°]
 पौरुष- स्व°
 पौरुषेय- ४अ°

पुरुष-सूक्त- कल्पस्तवनादि°
 *पुरुष-इत्या- समस्तया...तक°°
 पुरुषा(प-श्र)र्थ- ४अ°, अत्यन्त°,
 चतुर्विध°, सर्व°
 पुरुषो(प-उ)त्तम- आनन्दरत्मक°,
 प्रेमानन्दरत्न°, रसिकानन्द°

*पुरोडाश°- मन्त्र°
 *√पुल्, > पुल- वि°

पुलिन- नदी°, शून्यागार°°
 पुलकस-> पौलकस- ४अ°, ५न°

√पुप> पोपि सम्°
 पुष्ट- अति°, १नित्य°, सु°, इष्ट°
 पुष्टि- सु°
 *पोपक- कामरस°
 पोपण- शरीर°
 *पोःपमाण- सम्°

पुष्कर- अतिपुष्ट°, २कर°, १इद्°
 पुष्करि(न्)णी- श्लोम् वृ ६, ४,
 २३५°. [न्, णी- अप्परस्°,
 उष्णोदक°, गोपी°, गोविन्द°,
 २जल°, रुद्रशिव°, धीराधा°,
 श्रीराधाकृष्ण°, मुग्धमणि°]

पुष्प- ४अ°, अक्षत°, अतसी°, अधस्°,
 अनन्त°, अमृत°, अम्लान°,
 आनन्द°, कदली°, कदार°,
 कुसुम्भ°, गन्ध°, गुच्छ°, चम्प-
 क°, १चित्र°, जाती°, तर्क°,
 तृण°, ४नाग°, नागकेसर°,
 नाना°, नीलमणि°, पक्वफल°,
 पत्र°, पारिजात°, १फल°,
 १फल°, वन्धूक°, मणि°, मन्दा-
 र°, मन्दारपारिजात°, १मूल°,
 २रत्न°, २वसन्त°, विचित्र°, २वे-
 त°, संन्यस्त°, २सुगन्ध°, सुसहस्र-
 स्थ°, स्यूत°, हरितपीतश्वेतारत्न°

*पुष्प-गुच्छ-लता- अनेक°
 *पुष्प-दन्त°- ऐरावत°
 *पुष्प-फल-लता-गुल्म- कल्पवृक्ष°
 *पुष्प-मास्य- अनन्त°
 *पुष्प-राग- पद्मराग°
 पुष्प-लता- अनेक...रत्ना°
 पुष्प-पुष्टि- अमित°
 *पुष्पा(प्य-श्र)क्षत- ६स°
 पुष्पित- तदा°, सम्°

पुस्त- ज्ञानमुद्रा°°
 पुस्तक- पाश°, १मुद्रा°, १शाङ्क°,
 १शिव°

√पू> २पवन- कल्पान्त°, चित°,
 प्राण°, १मन्द°, मन्दादि°, ६स°
 *पवना(न-श्रा)पात- ज्वलनाघात°
 *पवना(न-श्रा)रूड- गुमनस्°
 *पवनो(न-उ)द्वेत- खुर...त°

पवमान- बहिष्°
 पवित्र- ४अ°, असिल°, अति°,
 ऊर्ध्व°, २जल°, १त्रिदण्ड°,
 परम°, १रत्न>ज्ञा°
 *पवित्रक- गन्ध°

पवि(त्)त्री- १पुरय°
 १पावक-> २पावक- -काय मउ ३,
 ६. [क- पवमान°, पातकेन्धन°,
 वासनातृण°]

पावन- अन्धि°, पङ्क्ति°, पङ्क्तिरा-
 ...स°, परम°

पूत- ४अ°, अमि°, आत्मन्°,
 आदित्य°, १ज्ञान°, इष्टि°, १देव°,
 १नित्य°, १ब्रह्मन्°, ब्रह्महत्या°,
 १मनस्°, मन्त्र°, १रुद्र°, वधत्र°,
 वायु°, विष्णु°, १सत्य°, सर्व°,
 १सूर्य°, १सोम°, स्याणु°
 *पूत-तन्तु- तद्बल°

पूग- आम°°
 *पूग-फल- एला°°

√पूज> अमि°, अभिसम्°, परि°, प्र°,
 प्रति°, सम्°

*पूजक- अद्वैतशिव°, १देव°, १शिव°
 पूजन- ईश्वर°, कर्तन°, तद्°,
 ताडन°, १देव°, देवद्विज...त्र°,
 बिल्व°महेश्वर°, २मातृ°, विष्णु-
 रुद्रादि°, श्रीचक्र°

*पूजया- सम्°

पू(ज>)जा- अर्चा°, अष्टदल°,
 अष्टाक्षर...ता°, आत्मन्°, आवर-
 ण°, उपात्मन्°, सुष्ट°, जप°,
 तादृशप...गिन्°, १देव°, द्वार°,
 नानामेरण°, पितृ°, पीठ°, पूज्य°,
 मद्°, मदेक°, महत्°, मानस°,

a) श्र ६, ४७, ११। b) श्रव्याः सं. अथा.। c) वैप१ यद.। d) श्र ५, ७८, ७। e) =दिग्गजविशेष-।

रहस्य°, १शिव°, शुभ्रुपा°, १सत्°, सत्कार°, सर्व°, सर्वात्मक°, स्नान°, ज्ञापन°
 *पूजा(जा-अधिकरण-मन्त्रज-पाधिकरण°)
 पूजित-तम् जाद ३,६,३° [°त-अभि°, अशोपामर°, परि°, विष्णु°, सम्°, सु°]
 पूज्य अभि°, परि°, प्र°, सम्°
 पूज्य-जज्ञस°, सु°, स्फुरत्प्र...ता°
 √पूय्>पृति-१मनस्°
 *पूय-मांस°, विरमूत्र°
 पूर-, पूरिन्-, १-३पूणमास-, १-२पू-मिमा-√पृ(परि.) द्र.
 पूर्त-२इष्ट>ष्टा°
 *१पूर्ति°-२इष्ट>ष्टा°
 २पूर्ति-पूर्य √पृ(परि.) द्र.
 पूवे-वं-श्वे २, १६५°. [°वं-४अ°, अति°, अनु°, उत्तर°, उप°, क्रिया°, १ज्ञान°, दशन्°, दृष्ट°, नम्°, १पर°, पृष्ट°, बुद्धि°, यथा°, वैराग्य°, शत°]
 *पूर्व(क)-अन्यधर्मविरमारण°, अभिशस्तप...न°, अष्टदिकपालकार्य°, आचमन°, आदर°, उदकस्पर्शन°, उपनयन°, एतद्-यन्त्राधान°, कृच्छ्रप्रायश्चित्त°, चौरे°, गुणमस्कार°, गृहस्थप्रार्थना°, ततन्मन्त्र°, तद्°, द्वादशवर्ष-शुभ्रुपा°, १न्याय°, पञ्चाशन्मा...क°, प्रतितामि...न°, पुराणश्रवण° प्रणव°, षण्णव्याहृति°, प्रणवानु-संधान°, प्रदक्षिण°, प्रदक्षिण-नमस्कार°, प्राणस्पन्दन°, भीति°, विन्दु°, भगवद्-व्यान°, ययोचित्ता-दिप्य°, ययोपयोगशुभ्रुपा°, सिद्ध-सिद्धि°, सौभकोधमोहे°, वाग-नामय°, विधि°, विषयव्यावर्तन°, १सुष्टि° सश°, शिरस्°, सर्वतस्°
 पृष्ट-पाशं-सुपुत्रा°
 *पृष्ट-पूर्व-४पिङ्गल°
 पृष्ट-भाग-इडा°
 पृष्ट-वंश-१वच°

विष्णु°, वेदान्तश्रवण°, शास्त्र-स...स°, श्रद्धावी...ज्ञा°, सज्जन-संपर्क°, सयोजातादि°, सहस्रगा-यत्री°, साधुप्रशंसा°, सावित्री-प्रवेश°, सीत्कार°, स्थूलस्...व°, स्वरूपातुसंधान°, खशाखा-ध्ययन°
 पूर्व-देह-प्राकृत°
 पूर्व-भाग-सुपुत्रा°
 *पूर्वा(र्व-अ)पञ्चा(न-अ)ध्रमा-(न-अ)चार-त्रिधा-धर्म-स्°
 *पूर्वा(र्व-अ)पर-विचारण-त्यक्त°
 पूर्वा(र्व-अ)र्ध-उकार°
 पूगन्-आदित्य°, घातृ°, १मित्र° १सोम°
 +√पृ, > १पर-व्या°
 +√पृच्, > पर्क-सम्°
 पृच्छक-√प्रच्छ(परि.) द्र.
 +√पृग्>पृ(ण)णा-लोकम्°
 पृथक्-४अ°
 *पृथक्-कृति-नामरूप°
 पृथक्-स्व-प्रज्ञान्तर°
 *पृथग्-धर्मिन्-४अ°
 पृथग्-भाव-४अ°, भूत°
 *पृथग्-विवेक-४अ°
 २पृथा->पार्थ->पार्था(र्थ-आ)दि-१अह°
 पृथिवी-वी मैत्रि ६, ३३°, -व्याः कुं २२: ८: -व्याम् सा ३२३: ४: -इये १कौल शां. [°वी-अन्नरसमय°, आधारशक्ति°, दि-वस्°, यावा°, महत्°]
 पार्थिव-मण्डिज°
 पृथुक्-मोदक°
 √पृप्>पृप्->पृप्-आश्रय-पालाश°
 पृष्ट-अभि°, अनु°, कलठ°, १रुद्र°, १कृक°, गोवर्धनादि°, मय्यामा°, १सुष्टि° सश°, शिरस्°, सर्वतस्°
 पृष्ट-पाशं-सुपुत्रा°
 *पृष्ट-पूर्व-४पिङ्गल°
 पृष्ट-भाग-इडा°
 पृष्ट-वंश-१वच°

√पृ(बधा.)> पारि, पुर, पुरि अति°, अनुसम्°, अभि°, आ°, नि°, परि°, प्र°, प्रति°, सम्°, समुद्°
 *२पर-अनुसम्°
 २पारि-४अ°, अपार°, आधम°, कला°, तमम्°, ब्रह्मद्वार°, संसार°
 *पारि-ग-१ज्ञान°, ज्ञानसागर°, २वेद°, वेदान्तज्ञान°
 *पारि-पर्यन्त-अष्ट°
 पाता(र-अ)यण-आनन्द°, इदम्°
 २पटिका°, १चक्र°, नामन्°, मन्त्र°, सर्ववेद°
 पाता(र-अ)वार-दृष्टिशूल...ल°, निरतिशयपरमानन्द°, निरतिश-यसौन्दर्य°, २निरतिशयानन्द°, निरन्तराति...नन्द°, परमलौज्° परमानन्द°
 *पारीण-सर्वमन्त्रयोग°
 १पुर->पुरस्(>:) अभि°
 पुरस्-चरण-कृत°
 पुरस्/कृ>पुरस्-कृत-श्रद्धा-भक्ति°
 पुरः-सर-तत्तन्मन्त्र°, दिव्यमङ्क-...य°, द्वादशवर्षसेवा°, नम-स्कार°, प्रतियोगिन्°, २मक्ति°, विदिततत्त्वञ्छाति°
 *पुरस्-सर-प्रणुपात°
 *पुरो-गम-स्यक्...खं, मन्त्रो-शान...र°
 १पुर->पुर-तस्(>:) दृष्ट १९६: १३: [तद्°]
 २पुर-अन्तर्°, अहम्°, १कारमीर°, २पुरे°, गणेश°, गो°, गोपाल°, १सुष्टि° सश°, शिरस्°, सर्वतस्°

a) बध्याः यो. अपा. । b) पूर्व- । c) सा ३२, ४ (द्र. टि. वेपर मत्ता) । d) गात. अपा. । e) यन्ताः यं. अपा. । f) पृ. (२५२४) यति. संख्यानिर्देशः द. । g) निपा. अपा. ।

४जयन्त°, वि°, दशद्वार°, १न-
न्द°, परस्त्री°, १भ्रमन्°, १भू°,
मिथिला°, मूलाधिया°, वायु°,
शृयमानु°, वैकुण्ठ°, १शिव°, स्व°
१पुरी°-नगर°, नरनारायण°
नरासिंह°, नाना°, १यम°, १राम°,
शक्र°, १श्वेत°, वैकुण्ठ°, रासन°
+२पुरी°-नीम ४२:१.
+पुर्-दर°- १भ्रमन्°, १भ्रमन्°
१पुराण->२पुराण-आगम°, इति-
हास°, तर्क°, २वेद°, २वेद°,
१धुति°, खर°
+पूर°- आ°, १काम°, खेचरीबीज°,
दुस्°, पारावार°, १बीज°, मणि°,
रेच°
१पूरक- कुचि°
२पूरक- रेच°, रेचक°
पूरण- आ°, १काम°, विदग्धोदर°,
सर्वसंपत्ति°
पूरित- अगाधजल°, आ°, ताम्बूल°
पद्यमण्डल°, मिष्टान्मृतस°, रत्न°,
सम्°
+पूरित-रेचित- वायु°
+पूरिन्- सर्वक्रीडारस°
पूर्ण- ४अ°, अखण्डानन्द°, अख-
ण्डानन्दपीयूष°, अधस°, अन्तर°,
अक्ष°, अभि°, अमृत°, अशु°,
आ°, आनन्द°, आनन्दबुद्धि°,
आनन्दस्वानुभविक°, ऊर्ध्व°, चि-
दस°, तदन्त्यविन्दु°, तोय°, निखि-
लपरमानन्द°, परमईस°, परमा-
नन्द°, परि°, १पाप°, पिष्टरस°,
प्र°, प्रति°, प्रविततसुख°, चद्वि°,
विन्दु°, मध्य°, यौवनसंपत्ति°,
रशिर°...टि°, रस°, शमदमा°
- रा°, शीतोदक°, १सद्बिदानन्द°
१सत्य°, १सदानन्द°, सम्°, स-

र्व°, गयगुरासंपत्ति°, गु°, स्वतार°
पूर्ण-धी- स्व°
+पूर्ण-पात्र- प्रबोध°
१पूर्ण-मास-
पौर्णमास- ४अ°
पौर्णमासी- -स्याम् गद्य
५४४: २४°.
२पूर्ण-मास->+पूर्णमासी->
+३पूर्णमास°- १दश°
पूर्ण-स्वरूप- १शिट°
पूर्णा(ए-व्या)मन्- स्व°
पूर्णा(ए-व्या)द्वि- १शिव°
१पूर्ण(म>)मा°-
+२पूर्ण(म>)मा°- पौष°
२पूर्ति- सत्रयाग°
+पूर्ण, पूर्वमाण- आ°, सम्°
पेय-पेयक- √पा (पाने) परि. द.
पेलय- परि°
पेशस्- ४अ°
पेपम् √पिप् (परि.) द.
पैप्पल्य- पिप्पल- (परि.) द.
पैशुन- पिशुन- (परि.) द.
+पोत्- धारा°
पोपक- पोष्यमाण- √पुप् (परि.)
द.
√प्याय्>पी>पीन- उचुत्, दटी-
भूत्°
√प्यै आ°, प्रत्या°
प्यायन- आ°
प्र/कृदु>प्र-कट°- ६स°, सदारस-
क्रोडा°, संसिद्ध°, स्वावेश°
प्र-कटित- १भाव°, भावसंविद्°
+प्र-कटिन्- परमन्त्र°...भूत्°
प्र-कर- २प्र-करण- प्र/कृ (परि.) द.
प्र-कर्ष- प्र/कृप् (परि.) द.
प्र/कृश, प्रकाशते त्रिवि ३१७:
२°.

प्र-काश- ४अ°, अतिनिर्मला°...वि°
अनन्तकोटिरवि°, अनन्तकोटिर-
विप्र°...अन्तर°, भ्रमन्°, आ-
त्मबुद्धि°, आहरण°, कोटिर्मय°,
चतुर्°, १चिन्°, अट°, तच्च°,
तारवप्रदीप°, ४तारक°, तुर्दातुर्थ°,
तेजस्°, त्रि°, दीप°, दीपवत्°,
पथिमाभिमुग्ध°, प्रत्यन्°, प्राप्ता-
र्थ°, बुद्धि°, मिश्र°, युगपबुद्धि°...
वि°, सत्तामात्र°, सत्तामात्रप्रका-
शक°, सर्व°, सर्वज्ञान°, स्फुट°,
स्व°, स्वयंज्योतिस्°, स्वयम्°,
स्वात्मन्°
+प्रकाश-कृत- रहस्यवृत्त°
+प्रकाश(श-ए)क-वन्धन-यद्°
प्र-काशक- अत्राप्त°, देवज्ञान°,
२योग°, सर्वविद्या°, सिद्धिमार्ग°,
प्र-काशन- चिदादित्य°, सर्वविद्या°
प्र-काशित- तद्°, विद्या°
+प्र-काशित, नी- ४अ°, तेजस्°,
१पर°, सर्वजन्तु°, सूर्यादिस°...न°
प्र-काश्य- ४अ°
प्र-कीर्ण- प्र/कृ (परि.) द.
+प्र/कृपु>प्र-कोष- वातापि°...धि°
प्र/कृ(करणे)>१प्र-करण°-
प्र-कार- अनन्त°, अन्य°, इत्यादि°,
२उपासना°, एवम्°, १गुह्य°, घट-
ना°, तद्°, तदुक्त°, द्रव्यम्°, द्वि°,
पुरुषसू°...स्य°, भजन°, १भोक्त°,
लित्तदेह°, विविध°, व्यष्टिसमष्टि°,
स्वगुरुक°
प्र-कृति- अविधेक°, अष्टम्°, जी-
व°, परम°, प्रणव°, प्रणवर्द्ध°...
न°, भूत्°, माया°, १मूल°, ६स°,
स्थूल°
+प्रकृति-काल- अरिष्टयुक्त°
प्रकृति-लय- १विदेह°

a) गपृ. (५५२६) यनि. संख्यानिर्देशः द. । b) =संख्यासिचवर्गविशेष- । c) यपा. द. । d) निता. त्रया. ।
e) =यागविशेष- । f) गपृ. (५५२८) यनि. संख्यानिर्देशः द. । g) वैप१ यद. । h) मतवैविध्यप्रदर्शनार्थं तु. टि.
वि-कट- । i) गपृ. (५५२९) यनि. संख्यानिर्देशः द. ।

प्राकार- अनन्त°, आनन्द°, गो-
पुर°, वैकुण्ठ°, सहस्र°, सुवर्ण-
जाम्बूनद°, स्वर्ण°
+ प्राकार-विशेष- अनन्त°, अ-
नेक°
प्राकार-प्रासाद-तोरण-विमानो-
(न-उ)पवना(न-आ)वलि- अ-
नन्त°

प्र/कृप् > + प्र-कृष- ध्यानाभ्यास°
प्र-कृष्ट- सर्वदेव°

प्र/कृ, > किर > + प्र-कर- जातियू-
यिका°

+ २ प्र-करण- १ नानापुष्प°
+ प्र-कीर्ण- लता°

प्र/कलुप् (<कृ) > कल्व > प्र-क-
लित- दृढवंग°, मृदुवर्म्मन्°,
व्यवहार°

प्र-कोप- प्र/कृप् (परि.) द्व.
प्र-कोष्ठ- > + प्रकोष्ठ-यूख- शिर-
शूल°

प्र/क्षल् > क्षालि > + प्र-क्षालित-
पाद°

प्र/क्षि(क्षेपे) > + प्र-क्षय- २ वासना°

प्र/क्षिप् > + प्र-क्षेप- अक्षत°
१ प्रक्षेपक-°

+ २ प्र-क्षेपक- प्रकार°

+ प्र/क्षया > प्र-क्षय, क्षया- इन्दीवर-
दल°, मणि°, रत्नवर्णमणि°,
हेमन्°

प्र/प्रह > प्र-प्रह- १ मनत्°

प्र-चरड- दरदेश°, २ मयु°

प्र/चर > प्र-चार- ४ अ°, १ मनत्°

प्र/चल > + प्र-चल- उचला... र्प°

प्र/चित् > प्र-चेतस- दिश°

प्र/चुद् > चोदि, प्रचोदयात् मउ ३,
१; ६; १०; ११; १२; १४; १६.

प्र-चोदित- तद्°, पुण्यपाप°, पुण-

कल्प°
+ प्र-चोदितृ- हंसात्ममा... ल°

√ प्रच्छ, > प्रच्छ अति°, अउ°, परि°,
सम्°

+ प्रच्छक- परि°

प्रष्ट- ४ अ°

१ प्रश्न- अति°, १ काम°, तद्°,
वृत्तीय°, परि°, सम्°

२ प्रश्न- ईश°

प्राद्- परि°

प्र/च्यु > + प्र-च्यव-, प्र-च्युत-
४ अ°

प्र/जन्, > जा > प्र-(ज) जा-जया
की २, ५; मउ ९, ४५; . [° ज, जा-

अधि°, आत्मतत्त्व°, राजन्°]

प्रजा-पति- -ति: मउ ९, ४५; .

[° ति- अखिललोकसृष्टि°, इ द्व°,
निशाकरो°, शक्र°, शिशुमार°]

प्र-जात- १ श्रुत°

प्र-जायमान- ४ अ°

प्र/ज्ञा > १ प्र-ज्ञा- ४ अ°

१ प्राज्ञ- १ देव°, महा°

२ प्राज्ञ- कारणव्याकृत°,

२ ज्ञाप्रत्, तद्°, वृत्तीय°, तैजस°,

२ प्राज्ञ°, १ विरव°, १ विरव°,°
सुपुप्त°, स्वप्न°

२ प्र-ज्ञ, ज्ञा- अधि°, अनत्, अ-

मल°, आयुम्, उभयतम्, १ पन्°

पूर्व°, गदित्, मायावाद... त°,

धृदा°, धृतानुमान°, सत्या°,°

सम्बन्ध°, सूदम्, स्त्री°, स्थित°,
स्थल°

प्र-ज्ञान- एकीभूत°, १ सत्य°

प्र/ज्यल् > + प्र-ज्वल- > + प्रज्वल-
संज्वाला- रफुरत्°

प्र-ज्वलित- अपोभ्यनीलीगु°

प्र/ण (<न)म् > प्र-णाम- तावाक्ति°

प्र/ण (<न)म् (अदर्शने) > नाति >

प्र-णाश- १ पाप°, मरणप्रभव°

+ प्र-णाशन- सर्वपाप°

+ प्र-णा (<ना)ल्- > प्रणा(लक) > -
लिका- रागरत्न... वेयु°

प्र-णि (<नि) > घा > प्रणि-धान- :
ईधर°

प्र/णी (<नी) > प्र-णय- स्नेह°
प्र-णीत- प्राक्°

+ प्र-णीय ४ अ°

प्र-णेतृ- कालचक्र°

प्र/णु (<उ) > प्र-णव- -वम् ध्या
१ ट्. [° व- अकारोका... र°, अ-

नत्, अभिमानोत्पत्ति°, अर्धमा-

त्र°, अर्धमात्रा°, आन्तर°, आर्ष°,

उत्पत्ति°, द्वादशसहस्र°, निरुण°,

निर्विशेष°, प्राक्°, वाद्य°, १ ब्रह्म-

न्°, महर्, मानुष°, विराज्,

व्यावहारिक°, दस°, संहार°,
सप्तम्, सृष्टि°, हंस°, हंस°]

+ प्रणव-प्रयोग- २ प्लुत°

+ प्रणव-विमान- तदभ्यन्तरस्य-
... त°

+ प्रणव-संधान- दर्शप°

+ प्रणव(व-आ)वर्तन- शुद्धि°°

प्र/णु (<उ)द् > + प्र-णुदन्- जरा°

प्र/तन् > + प्र-तान- लता°

प्र/तप् > प्र-ताप- चरट°, प्रदीप°

+ प्र/तर्क > प्र-तर्क- ४ अ°

+ प्रति/काश् > प्र(ति) > ती-काश-

कोटिपूर्व°, चित्रभित्ति°, १ प्रमेय°

पद्मम्, भातकोटि°

प्रति-कुम्भज- कुम्भ°

+ प्रति/कृज् > प्रति-कृज- रतिमुय-
संरति°

प्रति/कृ(करणे) > प्रति-कृति- १ २ प°
+ म(ति) > ती-कार- ४ अ°, तद्°, .

a) गद्. (२५२१) 'प्र-क्षेपक-' इत्यत्र दनि. शोधः द. । b) विर. वा नाप. वा । c) भावे कर्मणि वा
हृ । d) घान., घम्याः सा. भया. । e) मा ८, २९ । f) गद्. (२५२५) दनि. संवत्पानिदेशः द. । g) भावे कर्मणि वा
वा हृ । h) घान. भया. ।

प्रात्यहिकनुयु^०
प्रति-क्षय- > ^१प्रतिक्षण-सुख-दावृ-
२सलित्वा^०

प्रति/मृद्, मद् > ^१प्रति-गृह-
४अ^०

प्रति-मद्- उग्र^०, समस्तपा... तक^०
^१प्रति/घट् > प्रति-वटित- चन्द्र-
खण्ड^०

प्रति/शा > ^१प्रति-(शा)ञ-
१सत्य^०

प्रति-तिष्ठत्- प्रति/छा द्र.

प्रति/पद् > पादि > प्रति-पक्षि-
वनेक^०, अन्य^०, तदन्तर^०

^१प्रति-पादक- कर्मन्^०, त्वद्रूप^०
प्रति-पादन- निरुपाधितादात्म्य^०,
सर्वधृत्यर्थ^०

प्रति-पादित- १ज्ञान^०, नारायण^०
^१प्रति-पाल- > ^१प्रतिपाल > ^१प्र-
तिपालक- १सिष्ट^०

^१प्रति/फल > प्रति-फलन- चन्द्र-
स्य^०

प्रति/बन्ध > प्रति-बद्ध- ४अ^०
प्रति-बन्ध- ४अ^०, प्रस्तुत^०

^१प्रति-बन्धित- अन्यसंस्कार^०
प्रति-विम्ब- १चित्, विम्ब^०
^१प्रतिविम्ब > प्रतिविम्बित- अ-
न्तःकरण^०, अविद्यासागर^०, ज्यो-
त्स्नाति... वस्तु^०, तद्, बुद्धि^०

प्रति/भास् > प्रति-भास- प्रारब्ध^०
प्रातिभासिक- व्यापहारिक^०
प्रति-भासित- वेदशास्त्र^०, सागर^०

प्रति/मा(माने) > प्रति-म, मा- ४अ^०
ईस्वर^०, नूतन^०, पाषाण^०

^१प्रतिम-लिङ्ग- महत्^०
प्रति/युज् > प्रति-योगित्- क्षण^०
^१प्रति/रुघ् > प्रति-रोधक- चतुस्र^०

प्रति-रूप- ४अ^०
प्रति/वच् > ^१प्रति-वचन- वचन^०

प्रति/चिद् (ज्ञाने) गण. पृ५४१ द.

^१प्रति/चिद्(पीठायाम्) > प्रति-चिद्-
चिद्: कौ १, ४.

^१प्रति-चैकुराठ- अविद्यात्... एठ^०
^१प्रति-शाखा- शापा^०

^१प्रति/शास् > प्रति-शासन- ४अ^०
^१प्रति/ध्रि > प्रति-ध्रय- शून्यागार^०

प्रति/गि(<सि)घ् > प्रति-पिद्-
विहित^०

प्रति-पेघ- अन्य^०, तद्, भवणा...
र्थ^०

प्र-तिष्ठमान- प्र/स्था द्र.

प्रति/ष्ठा(<स्था) > प्रति-ष्ठ, छा-
४अ^०, अचल^०, अतद्रूप^०, अस्त्रेय^०,
अहिंसा^०, २कौल^०, चित्रतम^०,
प्राण^०, ब्रह्मचर्य^०, लिङ्ग^०, वायु^०,
६स^०, १सत्, १सत्य, तर्कविद्या^०,
सु^०, १स्वरूप^०, हुताशन^०, १हृद्

प्रति-ष्ठान- ४अ^०, अन्तर्^०
प्रति-ष्ठित- ता: नाप १५१: ७७.
[०त- ४अ^०, अनुष्टुप्, पूर्व^०,
सु^०]

^१प्रति-सं/क्रम् > प्रतिसं-क्रम-
४अ^०

प्रति/सृ > प्रति-सर- महत्^०
१प्रती[ति/इ(गली)] > प्रती(ति-इ)त-
सर्व^०

प्रती(ति-इ)ति- अपरोक्ष^०, आत्मन्^०,
कार्यता^०, तद्रेद^०, निर्गुणनिरवय-
वादि^०, बाह्य^०, १भाव^०, मित्या^०,
रक्तफटिक^०, वेदार्थ^०, शुद्धरफटि-
क^०, सगुणपरिच्छिन्नादि^०

प्रत्य(ति-अ)य- ४अ^०, अभाव^०, अ-
स्मद्, इतरतर^०, एकात्मन्, तद्, तद्रूप^०,
तद्रूप^०, इत्य^०, २दर्शन^०, २भव^०,
विराम^०, शब्दार्थ^०, स्वात्मन्^०
^१प्रत्यय-शब्द- अस्मद्

प्रतीक- सु^०
^१प्रतीका(क-अ)लम्बन- ४अ^०

प्रतीकार- प्रति/कृ(करणे) परि. द.

प्रती-कादा- प्रति/काश(परि.) द.
प्रती(ति/ई)ञ् > ^१प्रती(ति-ई)क्षा-
१भारता^०

प्रत्य(ति-अ)क्ष- अवाय^०, केदारगह्व-
शिरा^०, १नित्य^०

^१प्रत्यक्ष-निर्णय- १नित्य^०
प्रत्यक्ष-याध- तद्^०

^१प्रत्य(ति-अ)ङ्ग- १भङ्ग^०
प्रत्य(ति/अ)च् > प्रत्य(ति-अ)च्-
> ^१प्रत्यक्-प्रकाश- अकर्म^०

प्रत्य(ति-अ)धि-देवता- देवता^०
^१प्रत्य(ति-अ)र- विशाति^०

प्रत्या(ति-आ)/घा > प्रत्या-धान-
६स^०

प्रत्या(ति-आ)/ह > प्रत्या-हार- प्रा-
णायाम^०, २यम^०

प्रत्युप- धातु^०
प्रत्ये(ति-ए)क- पद्माशम्भा... र्ण^०

^१प्रथ् > ^१प्रथिति- तद्^०
प्रथम- २दर्शन^०

प्रथमा(म-अ)क्षर- ईकार^०
प्रथमा(म-अ)वरण- तद्^०

^१प्रथस्- ६स^०
प्र/द्ह > ^१प्र-दाह- ४अ^०

प्र/दा(दाने) > ^१प्र-त्त- मद्^०
^१प्र-द्- अणिमादि^०, अणिमा-

दिगुण^०, अप्रतर्क्यबुद्धि^०, अभय^०,
अमनस्कफल^०, आरोम्य^०, १काम^०
कामफल^०, कामितार्थ^०, काम्य^०,
कममुक्ति^०, चतुर्वर्गफल^०, चतुर्वि-

धु... दि^०, जन्मकर्मफल^०, जन्म-
कोटिरात^०, १ज्ञान^०, दीर्घायुष्य^०,
दुःखजन्मभय^०, दुःखशोकामव^०,
देवेन्द्रभोग^०, धनधा... पद्^०,
परमोपरम^०, १फल^०, १बीज^०,
भक्तानन्द^०, १भय^०, मुक्तिसुक्ति^०,
भुक्तिसुक्तिफल^०, भूमरुडलाधिप-

त्य^०, १भोग^०, १महत्त्व^०, १मनस्^०,
महत्त्वोमफल^०, महाज्ञान^०,

महामन्त्र^०, महायोग^०, महाल-
क्ष्मी^०, महासंपद्^०, मुक्ति^०, १मो-
क्ष^०, रतिशुखसंपद्^०, रोग^०, वयुज^०,
१वर^०, वजु^०, चान्दित^०, शुभ^०,
संपद्^०, सर्वकर्मफल^०, १सर्वकाम^०,
सर्वकामफल^०, सर्वजीवभय^०, सर्व-
ज्ञान^०, सर्वदुःख^०, सर्वफल^०, सर्व-
बल^०, सर्वभोग^०, सर्वविद्याप्रका-
शन^०, सर्ववेदचतुर्वर्गफल^०, १सर्व-
शक्ति^०, सर्वसंपद्^०, सर्वसिद्धि^०,
सर्वसौभाग्य^०, सर्वाभीष्ट^०, सर्वा-
भीष्टफल^०, सर्वोप्सितफल^०, सर्व-
शर्व्यफल^०, सायुज्यमुक्ति^०, सुख^०
प्र-दात्- १एकाक्षर^०, तदभ्यास^०
प्र-दान- अषकप्र^०, इन्द्रनील^०,
एकादशसहस्रगो^०, कोटिगो^०, गो^०,
तद्^०, तिस्रमात्र^०, दशगो^०, दश-
धेनु^०, द्विसहस्रगो^०, पायासन^०,
पिरा^०, बलि^०, भद्रवभोज्य^०,
रत्नासन^०, लक्ष^०, वैह्वर्य^०
प्र-दाय^० ४अ^०
+ प्र-दायक- दिव्ययोग^०, फलमुक्ति^०,
१मोक्ष^०, सर्वसिद्धि^०
प्र-दायिन्, नी- अमृतत्व^०, आन-
न्दवि^०...स्व^०, दाह^०, अकिमुक्ति^०,
समुत्तुल^०, सर्वशर्व्य^०
+ प्र/दिह् > प्र-दिग्ध- क्षिप्र^०
प्र/दीप् > प्र-दीप- तत्व^०, धृत्युत्प-
...न^०
प्र-दीप्त- अत्यन्त^०
प्र/दुप् > + प्र-दुष्ट- दुष्ट^०
प्र/दृष् > + प्र-दृशन- मध्यमादी^०,
सु^०
प्र-देश- अपस^०, फाल^०, गुद^०, गुल्फ^०...
टि^०, नाभि^०, पाद^०, मध्य^०, शिरस्^०
मादेश- अक्षुब्ध^०, शरीर^०
प्र/दृत् > प्र-घोतमान- सर्वोत्कृष्ट-
परमशुति^०
प्र-घोति(त) > ना- कौसुम्मा^०

प्रद्युम्न- अनिरुद्ध^०, १राम^०, वासुदेव^०
प्र/धा > प्र-धान- अविद्या^०, आत्म-
शक्ति^०, गुण^०, चातुर्होत्र^०, तद्^०,
वृन्दावनेत्र^० "डा", रजोगुण^०, श-
क्ति^०, रामु^०; १शुद्धसरव^०, सरव^०,
सरवतभोगुण^०, १सम^०
प्राधान्य- आनन्द^०, उभय^०, ततद्^०,
विद्या^०
प्र/ध्वंस > + प्र-ध्वंसिन्- उद्भूत^०
प्र/पञ्च > प्र-पञ्च- अनन्तभव^०,
अन्तर्वेहिस^०, अभ्यन्तर^०, अवि-
द्या^०, २जाप्रत्यक्षप्र^०, जाप्रत्यक्षप्र-
सुपुण्यादि^०, निस्^०, बहिष्^०, बाध^०
१मोक्ष^०, विद्या^०, शारीर^०, शिवश-
क्तिसंपुटित^०, सर्व^०, सर्वविद्या-
पाषिडत्य^०, सष्टि^०
+ प्रपञ्च(क)- ६स^०
+ प्रपञ्च-गन्ध- विगत^०
+ प्रपञ्च-रूप- पश्य ते १, ११^०.
+ प्रपञ्चा(ध-त्र)वगाहित-ज्ञान-
विद्याप्वस्त^०
+ प्र/पठ > प्र-पठन- ऋग्वेद^०, यजु-
वेद^०, सामवेद^०, खलवेद^०
प्र/पद् > प्र-पद- > + प्रपदा(द-त्र)-
हुष्ट- उन्नत^०
प्र-पद्म- आगममन्त्र^०...स^०, रसलीला^०
+ प्र-पादिन्- सभा^०
प्र-पितामह- आत्मन्^०, पितृ^०
+ प्रपितामही- २मातृ^०
प्र/पीड > डि > + प्र-पी(ड)डा-
तापत्रय^०
प्र/पू > परि > + प्र-परित- विद्या^०
प्र/कुल्ल > प्र-कुल्ल- ४अ^०
+ प्र-वल > माबल्य- १अज्ञान^०
प्र/सुप् > मोषि > प्र-सुप्- ४अ^०,
अर्थ^०, अर्थसूक्त^०, आत्मन्^०,
१नित्य^०, तन्मय^०
प्र-सोष- अक्षर^०, आत्मन्^०, जाप्रत्यं-
स्कारोत्प^०, १ज्ञान^०, ब्रह्मविद्या^०,

मध्यशक्ति^०, शक्ति^०
+ प्र-बोधक- १वाच्^० . .
+ प्र-बोधित- सु^०
प्र/भञ्ज > प्र-भञ्जन- सर्वमन्त्र^०
प्रभर्मन्- तृपल^०
प्र/भा > प्र-भ, भा- अङ्घ्रिममणी^०,
अग्नि^०, अनन्तेन्दुरवि^०, अचिःस-
म^०, इन्द्रगोपसम^०, उग्र^०, कोटि-
चन्द्र^०, कोटिदिवाकरसम^०, कोटि-
सूर्य^०, कौस्तुभ^०, गौक्षीरधवल^०,
चन्द्रकोटिसम^०, चामीकर^०, तडित्^०,
तप्तजाम्बूनद^०, तुहिन^०, पूर्ण^०,
प्रातःसूर्यसम^०, बालाककोटि^०,
ब्रह्मज्ञान^०, ब्रह्मानन्दरम^०, भातु-
कोटिसम^०, भिन्नाञ्जनसम^०, १मन-
स्^०, महाविद्यासंचय^०, मृदु^०, रत्न^०
विशुशुञ्जसम^०, विधूनागिनसम^०,
१सत्य^०, सुवर्णसदृश^०, सूर्यकोटि-
सम^०, सूर्योत्पुल^०, रक्तिक^०, रक्तिक-
कभूषवि^०...दि^०, स्व^०, स्वयम्^०,
स्वर्ण^०, हरिदिनकल^०
+ प्रभा-शक्ति- विषेपशक्ति^०
प्र/भाप् > प्र-भाषण- गद्^०
प्र-भास- धातु^०
प्र/भिद् > + प्र-भेद- अधिचरित^०,
आकाश^०, देवादि^०, सर्वदोष^०,
सर्वभोग^०
+ प्र-भेदिन्- शिरःशुलासि...टक^०,
सर्वविद्या^०
+ प्र-भेद- ४अ^०
प्र/भृ(ग्या.) > प्र-भव- १ओकार^०,
मरण^०, संकल्प^०, स्वभाव^०
प्र-भाव- अग्रतिम^०, आयुष^०, तपस्^०,
१गुण्य^०, यद्^०, राममन्त्र^०, शक्ति^०
शक्त्यादित्य^०, सर्ववैराग्य^०, स्वान-
गुण्य^०, स्वर्णोप^०...धर्म^०, ह्यमीव^०
प्र-भृ- भृः मेधि ५, १^०. [भृ-
कमला^०, तद्^०, गद्दर^०]
+ प्र/भृ > प्र-भृति- गीतमभर...^०,

a) अस्याः भो. ऋण. । b) वैर र. । c) उ. ग. उ. ५०५. ५०५. ५०५.

चन्श्रवली, तदा, नवम्, मरुत-
भरत, संवर्तकारिणधेतकेतुज...
क, संवर्तकारिणधेतकेतुदु...प्रे-
चरैवतक, संवर्तकारिणधेतकेतुदु-
...प्रेथरैवतकमुमुण्डः

प्र-भेद- °दिन्, °ध- प्र/भिद्
(परि.) द.

प्र/मथ् > *प्र-मथन- १यत्

प्र/मद् > प्र-मत्त- ४अ°

प्र-नाद्- ४अ°, निद्रा°, व्याधि°

प्र/म(माने) > प्र(म) > मा- अन्त-
र्यंत°, अन्तर्गुह°

प्र-माण- ४अ°, अयिल°, १अणु°,
अण्ड°, अयुतद्...न°, अष्टहरत्°
अहोरात्र°, आयुष्°, एकाग्र्युल°,
रकति°, कार्पासास्थि°, किवन्°,
गुण°, तर्क°, वृष्टिमात्र°, दराह-
स्त°, धनुस्°, धर्मिप्राहक°, धात्री-
फल°, धूरवेला°, नाम्यादिप्रस-
विल°, नाम्यादिप्रसन्धान्त°,
पादादिमल्लक°, सपादकोटियो-
जन°, सर्व°, रहस्त°, हस्तमात्र°
प्रमाणय- ४अ°

*प्रमाण(-क)- तद्

प्र-माव्- > *प्रमावृ-त्ता- देश्यन्

प्र-मित- वितरित°

प्र-मेय- ४अ°, प्रमाण°

प्र-मुख- भीष्मश्रेण°

प्र/मुच् > मोक्ष > *प्र-मोक्षण- सा-
वैकालिकसर्वभय°

प्र/मुद् > प्र-मुद(द) > वा- > १मसु-
दित > वा-

+२प्र-मुदित- १नित्य°

प्र-मोद- मोद°, र्वर्णु°

प्र/मृज् > *प्र-मार्जन- तद्

प्र/यत् > प्र-यत्न- ४अ°, अति°,
आत्मन्°, छत°, १पुस्य°, सर्व°

प्र/यम्(यमने) > प्र-यत्- > *प्रयत्न-

मानस- ४अ°

प्र-याज- प्र/यज् द.

प्र-यास- प्र/यस् द.

प्र/युज् > प्र-युज- १ प्रोक्तर°, कण्ठ-
माला°, १पर°

प्र-योग- अभ्यास°, वृथवर्तीडा°,
प्रणव°

*प्रयोग-कल्प- तद्

प्र-योजक- ४अ°, संसारोत्पत्ति°

प्र-योजन- रूपमदण°, ६स°

*प्र-योग्य- अपर°

प्र/ग्रह् > *प्र-रोह- उपदेशवीज°,
मण्डीनारक°

प्र/लप् > *प्र-लाप- असंबद्ध°

*प्र/लम् > प्र-लम्बिन्- मुक्ताहार°

*प्र/लिप् > प्र-लित- २धुधा°

*प्र-लेप- मलमूत्र°

प्र/ली > प्र-लय- अनादिमूलाविधा°
आ°, उदात्त°, जगत°, महत्°,
संख्यतली°, छष्टि°, स्थिति°,
स्थिति°

*प्रलय-ज्वाला(ला-श्च)भि-
अनन्तघोर°

प्रलयो(य-उ)द्वय- संसार°

प्र-लीन- अन्तर्

प्र/वच्, प्रवक्ष्यामि त्रिवि १°.

*प्र-वक्तृ- शिवधर्म°

प्र-वचन- स्वाध्याय°

प्रो(प्र-उ)क्त- अन्य°, मुनि°, १मृत्यु°,
१शिव°, १धृति°, हनुमद्°

*प्रो(प्र-उ)क्त्य ४अ°

प्र-वक्ष- उदक्°

प्र/वस्(निवासे) > *प्र-वसित- १नि-
त्य°

प्र/वह्(गती) > प्र-वाह- अनन्ता-
नन्द...रत्°, अनर्गल°, अमितते-
ज्, अमृतभारा°, आनन्द°, आ-
नन्दरत्°, आह्लादानन्त°, गङ्गा°, १

२जल°, शीतम्°, दुःख°, परमतेजो-
मशानदी°, परमानन्द°, प्रयास°,
प्रमनोमो...रत्°, प्रप्रविचा°, प्रमा-
कारमनोवृत्ति°, १मनम्°, सत्रा-
तीय°, मूर्धमयष्टला...नदी°, स्वा-
रमान...रत्°

प्रो(प्र-ऊ, ष)- ४अ°

२प्रवाल- धानु°, विषय°, मुखर्णयूधि-
का°, रूफटिक°

प्र-वि/मज् > *प्रवि-भाग- तद्°,
पदार्थ°

प्र/विश्व् > प्र-विष्ट- वेदशिरम्°
प्र-वेत्त- अमि°, २चैतन्य°, परकाय°,
विल°, सावित्री°

*प्रवेत्ता(श-श्च)व्य- ईक्षणादि°

*प्र-वीण- अत्यन्त°

*प्र-वीर- १कृत्°

प्र/वृ(वरणे) > १प्र-वर्- १देव°

प्र/वृ(आच्छादने) > २प्र-वर- अनेक-
मणितला°

*प्र-वार- विविधतला°

प्र/वृत् > प्र-वर्तक- कर्मज्ञानवैराग्य°,
दिवा°, मुक्तिमार्ग°, रात्रि°, सर्व°

*प्र-वर्तिन्- ४अ°, ऊर्ध्व°

प्र-वृत्- ४अ°, द्वादशानाध्वन्य°,
विमुक्त्यभि...र्ग°, शिवयोग°

प्र-वृत्ति- ४अ°, इतरशास्त्र°, इ-
न्द्रिय°, तत्तत्कर्म...य°, निष्कल°,
प्रकार°, बहुमार्ग°, १प्रज्ञाव°,
युगपद्°, २योग°, योगशास्त्र°,
संसारनिवृत्तिमार्ग°, सदाचार°,
सर्व°, स्वचतुर्दशकरण°

प्र/वृष्ट् > प्र-वृष्ट- गुण°

प्र-वृष्टि- १वत्°

प्र/वृष् > प्रा-वृष्- > *प्रावृषेय- >
*प्रावृषेय-घन-राजि- सजल°

प्र/वे > प्रो(प्र-उ)त्- ओत्°, १श्वत्°

*प्र/वेष्ट् > प्र-वेष्टित- नानारल°

a) गद्. (पृ ५५१) यनि. संख्यानिर्देशः द. । b) ध्यान. अथा. । c) व्यु. । d) गद्. (पृ ५५५) यनि.

प्र/व्रज्>प्र-व्रजित- अति°, चाट°
 प्र/शस्>प्र-शा(स)>सा- विमुक्ति°
 साधु°
 प्र-शस्त- ४अ°
 प्र/शम्>शाम्>प्र-शाम- १मनस्°
 †प्र-शामन, नी- १मनस्°, महादुर्ग°,
 सर्वदुष्ट°, सर्वमृत्यु°
 प्र-शान्त- ४अ°, सु°
 †प्र-शान्ति- भूत°
 प्र/शास्>†प्र-शिष्य- शिष्य°
 प्र/श्वस्>†प्र-शवास- दुःख°,
 श्वास°
 प्र/सञ्ज्>प्र-सक्त- तद्°, भोगै-
 श्वर्थ°
 †प्र-सक्ति- आचार°, कृत्त्र°, दृष्टवा-
 घादि°, दौषद्वय°, पुनर्वाद°, पूति-
 भाव°, बहुकल्पना°, प्रप्रबाध°,
 वस्तुकल्पना°, विशेषखानार्थक्य°,
 हितकारणादि°
 प्र-सह-अनिष्ट°, अन्यस्मृ...दोष°,
 अविमोक्ष°, उपलब्ध्यनुपलब्धि°,
 तद्वत्°, निमित्तनैमित्तिक°, १रति°
 स्मृत्यन...प°, स्व°
 प्र/सद्>प्र-सन्न- अति°, मयुर°, सु°
 प्र-साद- अघ्यात्म°, आत्मबुद्धि°,
 १ओंकार°, चिप्र°, गुरुदेव°, गुरु-
 वक्त्र°, प्रागस्त्वानिन्°, १चित्°,
 चित्त°, १ज्ञान°, तद्°, लद्°,
 १देव°, देवता°, नारायण°, भोज-
 नोच्छिष्टकृपा°, मद्°, १मनस्°,
 वन्दुर्गो° १वर्णे°, १वाच्°, व्यास°
 १शिव°, धीहनुमत°
 प्र-सादन- चित्त°
 प्रा-साद-अनन्त°, अनेक°, विन्मय°
 २चैतन्य°, प्राकार°, बोधानन्द°,
 मेरु°, वैजुरठ°, शुशानन्दवि...
 नन्त°
 प्र/सद्>†प्र-साह- ४अ°

प्र/साध्>†प्र-साधक- अशेषार्थ°
 २प्र-साधन- देह°
 प्र/सिध्>प्र-सिद्ध- ४अ°, पद्गुण°
 प्र-सिद्धि- शिवयोग°, सर्वयोग°
 प्र/सू(प्रणे)>†१प्र-सव- १सत्य°
 प्र/सू (प्रसवे), प्रसूते व्रिता १, २०.
 २प्र-सव- नानानाडी°, निवृत्त°,
 प्राणिन्°
 प्र-सूत- १नव°, बृहस्पति°, सत्कुल°
 प्र-सूति- तद्°
 प्र/सृ, >सारि>†प्र-सारण- पाद°
 प्र-सार्य जाद ३, ६, २^b.
 प्र-सृत- संसारवारि°
 प्र-सृति->†प्रसृति(क)- ६स°
 †प्र/सृज्>प्र-सृष्ट- लद्°, मद्°
 प्र/स्तु>प्र-स्तुत->†प्रस्तुत-प्रति-
 बन्ध- ४अ°
 प्र/स्था>प्र-स्थ- १देव°, पित°,
 महत्°, वन°
 †प्र-स्थान- महत्°
 †प्र/सृ>प्र-स्रवण- गिरि°
 प्र/हा(त्यागे)>†प्र-हाण- स्वरूप°
 †प्र-हाणि- जन्ममृत्यु°
 प्र/ह्>†प्र-हरण°- दम्भोत्तिस्तम्भ-
 सार°, नानाशस्त्र°, भरमन्°
 †प्रह्नी°- विमला°
 प्रा(प्र/श्)च्, ङ्च्>प्रा(प्र-श्)च्, ङ्च्-
 प्राक्, प्राङ् कौ २, १०.
 प्राक्-तन->†प्राक्तन-संचार- पुर-
 प्राम्°
 †प्राह-श्रुति- तद्°
 †प्राग्-भार- कैवल्य°
 प्राचीन->प्राचीन-योग- प्राची-
 नयोग्य- सैतव°
 प्रा(प्र/श्)ण (प्राणने), >भागि >
 प्रा(प्र-श्)ण- णः नाप १५१ :
 ८; णाः नाप १५१ : ७; णेन
 कौ २, ५६. [०ण- ४अ°, अपान°,

आयत°, इन्द्रिय°, १इष्ट°, उल्ला-
 न्त°, उप°, एक°, कण्ठस्थ°,
 चक्षुस्°, जगत्°, जीव°, पथन्°,
 बाह्य°, ब्रह्माधर्वन्°, भूत°, मद्रत°
 १मनस्°, मर्मन्°, ३महिप°,
 मुख्य°, १वाच्°, २वातना°,
 व्यान°°, श्री°, ६स°, १सनान°,
 १समान°°]
 †प्राण-चिन्तन- प्रवाप°
 †प्राण-पञ्चक- बुद्धि°°
 प्राण-प्रतिष्ठा- लक्ष्मण°
 प्राण-मय- अन्नमय°
 †प्राण-योजन- तद्°
 प्राण-स्थापन- गायत्री°, शुदि°
 †प्राण-हत्या- समस्तपात...क°°
 प्राणा(ण-आख्या)>ख्य- ४अ°
 प्राणा(ण-अ)ग्निहोत्र- कृत्व-
 ली°°
 प्राणा(ण-आ)दि- वायुकार्य°
 प्राणा(ण-आ)याम- २यम°°
 प्राणिन्- शत्रु°, तर्क°
 †प्राणि-वीथ- सर्व°
 प्रा(प्र-श्)णत्- †प्रा(प्र-श्)णवित-
 व्य- ४अ°
 प्रातर(>:) हजा ४९! [अभि°,
 सायम्°]
 प्रादुस्>प्रादुर/भू>प्रादुर-भाव-
 अणिमादि°, अभिभव°, आवि-
 भाव°
 प्रा(प्र-श्)न्त- ओंकारेधारण°
 प्रा(प्र/श्)प, >इंत्>प्रा(प्र-श्)-
 पक- सर्वशरीर...द्वन्°
 प्रा(प्र-श्)स- ४अ°, म्म°, १तन्मा-
 प्र°, परंपरा°, १मद्रन्°, यथा°,
 १शम°, २हस्त°
 प्रा(प्र-श्)सि- ४अ°, अकारण°,
 अशर°, १कैवल्य°, कैवल्य°, तप्त-
 क्षीतो...सा°, तप्तसोका°, तद्°;

a) मरु. (५५५७) यति. संख्यानिर्देशः द. । b) अघ्याः यो. घया. । c) घया. द. । d) वरणे ह. ।
 e) सु. । f) अघ्याः सा. घया. । g) घान. अघ्याः सा. घया. । h) अघ्याः सं. घया. । i) अघ्याः शे. घया. ।

तद्दर्शनं, तल्लोकं, देशान्तरं,
देहान्तरं, धर्मं, निर्वाणं, परमा-
त्मपदं, पुनर्, प्रेमानन्दं, महा-
ज्ञानं, प्रज्ञानं, भगवत्, भज-
नये... र्, भोक्तृ, रसिकानन्दं,
शुभं, संभोगं, सर्वं, सारस्वतं,
सुहृद्

प्रा(प्र-आ)प्य ४अ°

प्रा(प्र-आ)प्य- प्राप्

+प्रे(प्र-ई)प्सु- कर्मफलं, १फल°

प्राचल्य- प्रचल- (परि.) द.

प्राप्य- मोदं, रामदम°

प्रायस्(श) > प्रायस्-चिच- कृच्छ्र°
प्रवागा... क्तं, सर्वं°

प्रा(प्र-आ)√रभ् > प्रा-रब्ध- > +प्रा-
रब्ध-कर्मन्- विविधविवि... भ°

प्रा-रग्भ- प्राष्टकाल°

प्रा(प्र/अर्थ) > विं > प्रा(प्र-अ)घं-

(न >) ना- गृहरथं, रतेपण°

प्रावी- सु°

प्रा(प्र-आ)√वृ(आच्छादने) > प्रा-चर-
ण- > +प्रावरण-भोजन- २कु°

प्रावृषेय- प्र/वृष्(परि.) द.

प्रा(प्र/अ)श्र(भोजने) > प्रा(प्र-अ)-
शान- सक्तु°

प्रियङ्गु- २अणु°

प्रियङ्गु-विट-पैप्पल्य°

√प्री सम्°

प्रिय- ४अ°, अर्थ°, आलिङ्गनं,
ईश्वरं, प्रीकामं, रङ्गणं, गानं,
जडत्वं, तामसं, तिलज्योति-
ष्टं, दृष्टिं, नारायणमन्त्रं,
१पद्मं, परीक्षं, विल्वं, २भक्तं,
१भोगं, महाकालं, महामहलं,
सुहृन्द्, योगिजनं, योषिवं,
१रतिं, १रुद्रं, लोचनं, वस्त्रदकं
विष्णुं, १शिवं, ६सं, संभोगं,
सर्वं, सर्वजनं, सारिवहं,

स्वतत्, हरि°

प्रेष्ट- मणि°

+प्रियं-कर- सर्वं°

प्रिय-तम- अत्यन्त°

प्रिय-व्रत- स्याणु°

प्रिया(य-अ)प्रिय- तुल्यं, सर्वं°
प्रीत- अति°

प्रीति- अति° आयुत्, गता, तद्°

देवता°, परमहंस°, १भगवत्,

१रतिं, विष्णुं, १शिवं, श्रीका-

लामिन्द्रं, श्रीमहागण्ड°

प्रीयमाण- सम्°

प्रीमन्- अति°, इन्द्रियशुद्धिं, गाढं,

१परं, परमं, भजनं, १रतिं,

सखिं, सर्वं, सुरतकला°

प्रीम-भजन- अत्यन्त°

+प्रीम-भर- आलिङ्गनञु... त°

प्रीमा(म-आ)नन्द- १मुता-
नन्दं°

+प्रीमानन्द-प्राप्ति- अति°

प्रे(प्र/इ(गतौ)) > प्रे(प्र-रु)त- १अ-
सुरं, दिग्भवादिं, भूतं, भूतं°

+प्रेत-विशाच- ६सं°

+प्रेतपिशाच-मण्डल- प्रहम-
गुडल°

प्रे(प्र/ई)त् > प्रे(प्र-ई)श्रण- नटादिं,
प्रेमन्°

+प्रीश्रण(क)- नाना°

+प्रीगीवक- एकं, चतुर्°
प्रे(प्र/ई)र > प्रे(प्र-ई)रित- दुष्टप्रह-

प्रे(प्र/इ)प्रा(गतौ) > प्रे(प्र-ए)प-
विशुषीकृत°

+प्रे(प्र-ए)प्य- १पर°

प्रीच्य प्र/वच्(परि.) द.
+प्रोद्दि [प्र-उद्/इ(गतौ)] > प्रोद्-

इत्- > प्रोदित-मात्र- भूमि°

+प्रोष्टपद- उत्तरं, पूर्व°

प्रीहन्- १शुल्भ°

√प्लु, > प्लावि भा°, उद्, उप°, परि°,
प्र°, वि°, सम्°

१प्लव- १ओकारं, १ज्ञानं

२प्लव- उप°, परि°, वि°, सम्°

+प्लवन- सु°

+प्लावक- रेचक°

प्लावन- अमृत°

+प्लावित- भा°, केराच्छटा... स°

+प्लाव्य भा°

१प्लुत- वृषदाज्यं, सम्°

२प्लुत- उदात्तं, दीपं, हस्व°

+प्लुर्य भा°, उद्°

+√प्ला, > प्लास्य सम्°

फ

फद् १डु°

√फण > फण, णा- अयुतं, तद्°,
शेष°

+फण्ट- > फण्ट-रस- गोरस°

+फर्षां- प्र°

√फल् प्रति°

१फल- ४अ°, अणिमादिं, अन-
न्तं, अनु°, अक्षं, अमीष्टं,
अमनस्कं, अयुतं, अमृतत्वं,
अर्धं, अविशिष्टं, अशेषं, असं-
सर्गं, आमं, १दृष्टं, ईरिसतं,
एकादशसं... नं, एतद्, कर्मन्,
कर्माजितं, १कामं, कैवल्यं,
कोटिगोप्रदानं, कतुरातं, क्रियां,
खर्जरं, सुच्छं, चतुर्वर्गं, चतु-
समुद्रं... नं, जम्बीरं, २जम्बू,
१ज्ञानं, तत्तत्कर्मन्, तत्तद्,
तद्प्रदानं, तद्, इतिष्ठिकं,
दृष्यं, त्यागं, दशगोप्रदानं,
वृक्षां, द्विसहस्रगोप्रदानं, धर्मं,
२धात्रीं, नाकं, नित्यविहित-
कर्मन्, निस्, नैवेद्यं, न्यग्रोधं,
पक्कं, पवाथ... पं, पत्रं, पयस्,

a) वैप १ यद्. b) गृप्. (धृ १६६) °पैप्पल्य इत्यत्र यनि. शोषः द. 1. c) व्यु. ? 1. d) व्यु. ? = नक्षत्र-

पण^०, १पाप^०, पारावत^०, १पु-
रव^०, पुण्यपाप^०, पुष्य^०, पूग^०,
प्रतिभिम्बितराखाम^०, प्राक्कर्मन्^०,
चदरी^०, बिल्व^०, भस्मज्ञान^०, मुक्ति-
मुक्ति^०, महत्^०, महस्तीम^०, २मु-
ह्य^०, मुक्ति^०, १मूल^०, १मूल^०,
मृद्^०, १मोक्ष^०, मौन^०, यज्ञ^०,
१यथोक्त^०, योगक्षेम^०, वट^०, वा-
न्वित^०, वि^०, विनश्चर^०, विमुक्त^०,
विप्युत्त^०, वैकडित^०, गह्वरुत्प^०,
शमीसमिध^०, २शाक^०, शुभा-
शुभ^०, श्री^०, पद्मसहस्र^०, १०,
६६^०, संज्ञान^०, १सर्व^०, सदसत्^०,
२समान^०, सर्व^०, १सर्वकर्मन्^०,
१सर्वकाम^०, सर्वकतु^०, सर्वतीर्थ^०,
सर्वमन्त्र^०, सर्ववेदपापारयण^०, सर्व-
स्वर्ग^०, स्व^०, स्वर्ग^०, १हेतु^०, ह्यद-
परिताप^०

*फल-नृगौ(ण-श्रो)पधि-वन^०
फल-द-अनायास^०

*फल-पल्लव-सहस्राङ्कु^०त्मन्^०

*फल-पुष्प-वृक्षा(क्ष-आ)दि-
नानारक्षम^०

*फल-प्रद-वर्षलक्ष^०

*फल-त्रेप्सु-४भ^०

फला(ल-आ)कङ्किन्-४भ^०

*फला(ल-अ)नन्त-निरशङ्का-

नन्द^०मणि^०

*फलन-प्रति^०

फलित-अशृतफल^०

फलफ-अमृत^०, ललाट^०

*फल्यु-अविग्रमान^०

*फलगु(ल)न्त्री^०-उत्तर^०, पूर्व^०

फाल्ट-✓फल(परि)द.

फाल->*फल-प्रदेश-तिर्यङ्गिप्रपु-

मान^०

*✓फुल्ल उद^०, प्र^०,

*कुल-प्र^०

*कुलिन-उद^०, प्र^०
फेन-एररडतैल^०, तरत्र^०, रदुग्ध^०,
पयव^०

व

व(<>व)कुल-आम्र^०, किंशुक^०,
३भद्र^०

वदर, री-आम्र^०, उदुम्बर^०

वधिर-मूक^०

वाधिर्ध-१ल्लुप^०

✓वन्धु-अनु^०, अव^०, आ^०, उप^०, नि^०,
प्र^०, प्रति^०, सम्^०, समा^०

बद्ध-४भ^०, अति^०, अव^०, आ^०,
उभयतट^०, कारण^०, कार्यकारण^०,
गुण^०, वृष्णा^०, दुःख^०, घातु^०,
नि^०, पङ्क्ति^०, पाश^०, प्र^०, प्रति^०,
१मध्यम^०, १मुक्त^०, रज्जु^०, रत्न^०,
२वासाना^०, वासनातन्तु^०, शृङ्खला^०,
सम्^०, साध्यायाकर्षण^०, सिरा^०,
सु^०, स्नायु^०, हरितद्वय^०

ब्रह्मण-४भ^०, नि^०

*वधय आ^०, सम्^०, समा^०

*वधयमान-खलाभिन्^०

१वन्ध-अनित्यसं^०मता^०, अन्तर^०,
आरमन्^०, आसन^०, उप^०, फल^०,
कर्मन्^०, १कुङ्कुटासन^०, कुक्षि^०,
कुण्डलिनी^०, वित^०, जन्मन्^०, त्य-
क्त^०, दिश^०, दृष्टि^०, १देव^०, देश^०,
देह^०, देशादि^०, नि^०, पन्वन्^०, १पुगु^०,
पाश^०, प्रति^०, २भव^०, भेद^०, मणि^०,
महत्^०, १मुद्रा^०, १मूल^०, १मोक्ष^०,
योनि^०, यय^०, शृङ्खला^०, सकल^०,
सम्^०, सम्मन्^०, सर्व^०, स्वान्मन्^०,
*वन्ध-कारण-विदित^०

*वन्ध-मय-साम्यन्^०

वन्ध-मोक्ष-संगति^०

वन्धन-१भद्र^०, अन्तरासार^०,
करादि^०, कर्मन्^०, केत^०, विग^०

विद्वन्निथ^०, रचैत्य^०, दिश^०,
नगरराजमुख^०, नि^०, परम^०, पारा^०,
प्रकाशक^०, प्राण^०, २भव^०, १मू-
ल^०, संसार^०, सर्वभूत^०

*वन्धिन्-अनु^०, प्रति^०

वन्धु-अमृत^०, आत^०, १पुत्र^०,
१गह्वन्^०, ४मित्र^०, राजन्व^०,
मुहृद्^०, रवेष्ट^०

वान्धव-१पद्म^०, ४मित्र^०,
सर्व^०, स्व^०

वन्धु-वर्ग-आत^०

वन्धुक-जपा^०

+✓वर्ह-> १वर्हण-१वर्हि(व->)-
णी-नि^०

वर्ह-> १वर्ह(हं-आ)घोतित-मुक्ता-
(का-आ)वलि->ली-स्यामहि-
...त्य^०

+२वर्हिन्->वर्हि-पिच्छ-१शङ्ख^०

२वर्हण-✓मृद्(परि)द.

वर्हिन्-१शर^०

१यल-४भ^०, अति^०, आयुस्^०, इन्द्रि-
य^०, उरसाह^०, कामराग^०, क्रिया-
शक्ति^०, चिरंतेना^०ना^०, १ज्ञान^०,
१ज्ञान^०, ज्ञानराकि^०, तपप्^०,
प्यान^०, प्र^०, भ्रमवासना^०, महत्^०,
यथा^०, यावन्^०, २योग^०, १हृप^०,
वैराय^०, सार^०, सर्व^०, यद्मन्^०,
सैन्य^०, स्व^०, हनुमतादि^०, हरितन्^०

२यल->बलीपस-४भ^०, मोद-
स्तम्भ^०

*बलीपम्-स्व-धृत्यादि^०

*बल-पराक्रम-अमित^०

१बल-राम^०

*२बल-राम-२गुरलोक^०

*बला(ल-म)बल-मदपागष्टि^०

*बलिमन्-४भ^०

१यला(<>)या->बाकाकि-रा^०

२यला(<>)या-वा रया १२.

a) वैश १ यत् । b) म्युः = नवप्रतिरोध । c) द. ग. १ ५७०५ । d) ग. १ (५५१) कर्ष.

बलि- दिश°, १नित्य°
 *बलि-दान- बलिवैश्वदेव°
 *बलिदाना(न-आ)दि- नैवेद्यभूत°

बलिमन्- १बल- (परि.) द.
 व(<>व)स्ति+ वास्तेय- -यम्
 छां ३, १५, २.

बहिस्(>प्) वृ३ ५, ३°. [अन्तर°, तद्°]

बा(<>वा°)द्य,द्या- -द्याम् सांका
 ३३; -द्याः सांका५०. [°द्य,द्या-
 ४अ°,अति°,अन्तर°,अशेष°,
 उपमान°,तद्°,प्रयतिदिशाल°]
 *बाह्य-प्रपञ्च- चतुरादि°
 *बाह्य-भेद- -दाः सांका
 २७.

-बाह्या(ह्य-आ)श्मन्- दृष्ट°
 बाह्या(ह्य-अ)भ्यन्तर- ६स°
 *बहिष्-कृत-ग्राम°,यज्ञ°,श्रद्धाभ-
 किं°,आदकर्मन्°,१सर्वकर्मन्°,
 सर्वदुःख°

बहु- अस°,सु°
 *बहु-कठोरो(र-उ)त्तमाह- हरित-
 हयवद°

बहु-श्- अति°
 *बहु-स्व- १पुरप°
 *बहु-रत्न- १धन°°

बहु-ल- क्रियाविशेष°
 १बाहुल्य°- विप्र°
 २बाहुल्य°-

बहु-विध-> *बहुविध-ध्यान-
 प्रणव°

बहु(हु-उ)दक- कुटीचक°
 बहु(हु-अ)च°- ऐतरेय°°

१बा(<>वा°)ण- -णः भा २३;
 -णम् प्र २,२;३; -णाः त्रिता ३,
 १५. [°ण- अरि°, उत्पद्य°,
 चाप°, तद्°, द्रावण°, धनुस्°,

पगन्°,परि°,पात्र°,पुण्य°,मद-
 नवेरा°, वशीकरण°, २शस्त्र°,
 संतापन°, गन्दीपन°, १संमोहन°]

२याण°- गणेश°°,नन्दसेन°
 ✓वाष्, >धि प्र°, सम°

१वाष्- ४अ°, अत्यन्त°, जीव-
 भा...व°, हृष्ट°, धर्मिमाहकप्रमा-
 ण°, धर्मिमाहकमान°, प्रत्यक्ष°,
 प्रत्यभिज्ञा°, १मद्वन्°, सम°
 याधक- ४अ°, देहात्मज्ञान°, प्रधान°
 सर्वोपरम°

*वाधन- वितर्क°
 *२वा(ध>)धा- जलामि...दि°,
 प्राणिन्°

वाधित- ४अ°, उत्तरद्वण°
 वाध्य- ४अ°, विया°

१याल- उन्मत्त°, १ज्येष्ठ°, सु°
 बाल-क- चित्त°.

*बाल-स्त्रीला- तद्°, परस्पर°
 *बालि-

१बालि-श- स्त्री°°
 *बाले(ल-इ)द्भु- धृत°

*वा(<>वा°)प्य-> *वाप्या(प्य-अ)-
 स्व- १त्वच्°°

वास्तेय- वस्ति- (परि.) द.
 वाहु- अनन्त°, ऊर्ध्व°, चतुर्°, १त्वच्°°

१दक्षिण°, दशन्°, दीप्त°, वृष्ट-
 वंश°, महत्°, सुदापु...सत्°,
 १वज्र°, २वाम°, विधत्स°, शत°,
 सहस्र°, सुकेयूरान्वित°, हिरण्य°,
 १हृद्°

बाहु-द्वय- मस्तक°°
 बाहु-शूल- ललाट°°

*बाहु-शूल- शिरःशूल°°
 *बाहु(हु-उ)दर-बन्धन-नेत्र-अनेक°

*बाहु(हु-ऊ)रु-पाद- बहु°
 वि(<>१वि)न्दु- अकार°, अघस°

अपु°, अमृत°, अभु°, एक°,
 २जल°, १जित°, तद्°, तृण°,
 तेजस्°, तैल°, प्यान°, नाद°, १ब्र-
 ह्मन्°, रेक°, वामश्रोत्र°, वियन्°,
 स्योमन्°, स्योमन्°, शश°, शुक्ल°,
 ६स°, स्फटिक°°, स्वेद°
 वेन्द्य- -यम् त्रिता २, २७; १६.

*विन्दु(-क)- ६स°
 विन्द्य- तुपारकर°, प्रति°, भास्कर°,
 शशशूल°, सिक्च°

*विम्ब-त्रय- १भू°
 *विम्ब्या(म्ब-अ)धरो(र-श्रो)ष्ट- अ-
 त्तरिति°

विल- अर्वाच्°, करण°, १कर्ण°, १म-
 दान°, भुजग°, भूयुगमन्थ°, ल-
 चित्त°

विल्लय- प्रियतु°, मद्यतेजोमय°
 विल्व-पत्र- उत्तान°
 *विल्व-रूप- ६स°

१वी(<>वी)ज- अमि°, बहुश°, अ-
 मृत°, अविद्यातत्संभूत°, आका-
 श°, उपदेश°, १आकार°, १काम°
 कापांस°, १कूर्च°, खेचरी°, चित्त°,
 जगत्°, जगन्मोहन°, जीव°, जी-
 वश...श्य°, तद्°, तारमाया-

...स्व°, ३दत्त°, दुःख°, दृष्टि°,
 दोष°, नारसिंह°, नारायण°,
 निजबोध°, निर्दु°, नृसिंह°, परा°,
 १पुरय°, अपञ्च°, प्रयोग°, प्राण°,
 बीजशक्त्यादि°, बुद्धि°, ब्रह्मायैध-

...ल्प°, भूतदिक्पाल°, सृष्ट°,
 मन्मथ°, माया°, सुख°, ४रत्न°,
 १रत्ना°, रत्नामावा°, १राम°,
 वं°, वट°, वहि°, वराह°, वायु°,
 वाराह°, २वातना°, शक्ति°, शब्द°

धी°, धृष्°, ६स°, संसृष्ट°, सर्व°,
 सर्वज्ञ°, सु°, सूक्ष्म°, सौबाल°,
 १रामा°, १रत्ना°, १राम°,
 वं°, वट°, वहि°, वराह°, वायु°,
 वाराह°, २वातना°, शक्ति°, शब्द°

धी°, धृष्°, ६स°, संसृष्ट°, सर्व°,
 सर्वज्ञ°, सु°, सूक्ष्म°, सौबाल°,
 १रामा°, १रत्ना°, १राम°,
 वं°, वट°, वहि°, वराह°, वायु°,
 वाराह°, २वातना°, शक्ति°, शब्द°

a) वैत. J.C. °हिर्मो° इति (गप, ५५५४ सोधः द.) । b) तु. गप. ५५७०v । c) गप. (५५७६) यनि. संख्यानिर्देशः द. । d) बपा. द. । =श्ववेदिन्-, उपनिषद्विशेष- । e) व्यु. ? =पार्श्वद्विशेष- । f) गप. (५५७७) यनि. संख्यानिर्देशः द. । g) गप. (५५७८) यनि. संख्यानिर्देशः द. । h) °धैव° इति पा. ? यनि. सोधः द. ।

स्थूल^०, रस्पो^०, स्व^०, खर^०,
हयमीवैकांकर^०, रूहृद^०
+बीज-मन्त्र- अधोरो
बीजा(ज-न्ध)अर- त्रैलोक्यवशंकरी^०
बुद्बुद्- रजल^०, जीव^०, तरङ्ग^०, प्रा-
णिन^०, महाजलीष^०

√बुध्>बोधि, बुभुत्स् [अतु^०, अव^०,
उद्^०, नि^०, प्र^०, प्रति^०, वि^०, सम्^०,
संप्र^०]

१बुद्- ४अ^०, अद्वितीय^०, अद्वैत^०
अव^०, १आदि^०, १नित्य^०, १नि-
त्य^०, निरुपम^०, प्र^०, प्रति^०, शुद्ध^०,
सम्^०, सुप्त^०
२बुद्- २मरस्य^०
+बौद्- जैन^०

+बुद्धचत्- प्र^०

बुद्धि- -द्विम् गर्भ २०. [०दि-
४अ^०, अन्तःकरण^०, अक्ष^०,
अमात्य^०, अलम्^०, अल्प^०, असक्त^०
आत्मन्^०, आनन्द^०, इन्द्रिय^०,
उत्कृष्ट^०, एकता^०, एतद्^०, कृत^०,
शौर्य^०, गमन^०, चक्षुस्^०, तद्^०,
तीर्थ^०, दुःख^०, दुर^०, देह^०, नाना-
विचित्रज...र्थ्य^०, पाद^०, १पा-
प^०, पृथिवी^०, प्रबुद्ध^०, प्रभा^०,
प्राणादिपञ्चबालु^०, वाह्य^०, बुद्धि^०,
बुन्दावन^०, ब्रह्माराधन^०, भेद^०,
१मनस्^०, १मन्द^०, रस^०, रौप्य^०,
१वाच^०, विवेक^०, विवेकशुक्ति^०,
विषयग्रहण^०, विषयादि^०, १धा-
प्र^०, शत्रु^०, शुद्ध^०, सत्त्व^०, सम^०,
१सम^०, सर्वप्राणिन^०, सर्वानन्म^०,
साक्षात्, सिद्धि^०, सुख^०, सुखदः-
रत्^०, १रिथर^०, स्व^०, हानोपादानो-
पेक्षा^०]

बुद्धि-रूप- ४अ^०
+बुद्धि-मति- १मन्द^०

बुद्धी(दि-इ)न्द्रिय- कर्मेन्द्रिय^०,
मायामय^०
बुद्ध्या(दि-आ)दि- पञ्चन्^०, सुग-
तृष्णाम्बु^०

+बुध्- ४अ^०
१बुध- -धाः नाप १५१:८^b. [०ध-
४अ^०, वि^०]

+बुभु(त्त)>रसा- मनोभाव^०
बोद्धव्य- ४अ^०
बोद्धुम् सम्^०
बोद्- ४अ^०, सिद्धरूप^०

बोध- अक्षरद^०, अक्षरदानन्द^०,
अतु^०, अन्तःकरणसंमिल^०, अ-
मित^०, अव^०, आनन्द^०, कुरङ्कलि-
नी^०, केवलाक्षरद^०, तरव^०, तद्^०,
दुर^०, हरयासंभव^०, दोष^०, रनिज^०,
१नित्य^०, परमानन्द^०, पूर्ण^०,
पूर्णानन्दैक^०, प्र^०, प्रति^०, ब्रह्म-
साक्षात्...प^०, भयिष्यद्दुःख^०,
महत्^०, वि^०, विमुक्त^०, विविक^०,
वैराग्य^०, शक्ति^०, शुद्ध^०, संपूर्णा-
नन्दैक^०, स्व^०, १स्वरूप^०

+बोध-विशेष- वाचामनो...द^०
+बोध-सौध- अनन्त^०

बोध-स्वरूप- १नित्य^०

+बोधा(ध-अ)चल- अनन्त^०

बोधा(ध-आ)नन्द- अमित^०

+बोधानन्द-प्रासाद- अत्य-
न्तोन्नत^०

+बोधानन्द-भ्यूह-, +बोधा-
नन्दा(न्द-अ)चल- अनन्त^०

+बोधा(ध-अ)र्थ- अज्ञानजन^०
बोधक- आत्मन्^०, कुरङ्कली^०, प्र^०,
प्रत्यय^०, १मदान^०

+बोधन- अव^०, देहादितत्त्वत्व^०,
प्रति^०, सम्^०
+बोधविपृ- सम्^०

बोधित- पार्वरस्य^०
+बोधित्- दोष^०, ब्रह्मात्मन्^०
+बोधय सम्^०

बुध्- उद्^०, ऊर्ध्व^०, भूमि^०
- बुध्य- २अहि>अहिर^०

√बृंह्, >बृंहित- उप^०
+बृगल- अधे^०

१शृ(⟨>शृ)न्द- आमलक^०, जनता^०,
निरतिरा...रडल^०, पदार्थ^०,
सर्ग^०, २सुर^०

२शृ(⟨>शृ)न्द- आमलक^०, जनता^०,
२शृ(⟨>शृ)न्द- आमलक^०, जनता^०,
२शृ(⟨>शृ)न्द- आमलक^०, जनता^०

बृन्दावन- नम् गोट २१; सार
२५५:१२; २८९:८; -ने कृ७;
सार- २८९:८. [०न- अनन्त^०,
तद्^०, श्री^०]
+बृन्दावन-मध्य- -ध्वे राधा १,
१५.

+बृन्दावन-श्रेणि-विहारित्-
-रिणे सार २७७: १८.
बृन्दावने(न-ई)श्व(⟨>)री-
धी^०

√बृह्(०धा.)> +२बृहण- उप^०

१बृहत्- ४अ^०
बृहज्-जाबाल^० २प्रभ^०
+बृहद्-आरपय^०- ईशावास्य^०

१ब्रह्मन्- -हा मना २, ५५;
गोप् १; -झणा वृड १९७:२२^b;
-०झन् गोट १५६; -हा मउ ३,
१८. [०न्- ४अ^०, अक्षरद^०,
अक्षरदानन्द^०, अक्षरिणत^०, अ-
द्वय^०, अद्वितीय^०, अप्यात्म^०, अप्या-
तयाम^०, आ^०, १आदि^०, आन-
न्द^०, इच्छासा...क^०, उर्ध्वोत्तलज-
णम्ब^०, एतद्^०, षड्बली^०,
१विन्^०, वित्तदानन्द^०, विदाया-
द्वितीय^०, जीव^०, तद्^०, १सात्त्व^०.

a) अल्पाः सा. ऋपा. । b) अल्पाः सं. ऋपा. । c) भावे कर्मणि वा शृत् । d) श्रुः । e) गल्.
(१५८१) यनि. संख्याविदेशः द. । f) गल्. (१५८६) '१मन्त्र->-०ध्व' इत्यय यनि. शेषः द. । g) धान.
घपा. । h) निरा. घपा. ।

तुप्यात्मन्°, त्रि°, नवन°, नित्यमुक्त°
 निरुणु°, पचन्°, पयपाद°, १११°,
 पीठ°, प्रत्यच्°, २प्रप्र°, मंत्र-
 तार्क°, मद्दत्°, मायाशालित°,
 यज्ञोत्सलक्षण°, रहस्योपनिषद्°,
 वायु°, विम्वराज°, विष्णु°, १श-
 ह्ण°, शब्द°, शुद्ध°, शुद्धचिदा-
 नन्द°, शुद्धादित°, ६स°, सगुण°,
 सचित्परानन्द°, सचित्तुपरानन्द°,
 १सत्°, सदाशिव°, सर्ग°, सर्व-
 परिपूर्णतुरीयातीत°, सर्वशारीस्थ-
 चैतन्य°, साक्षात्°, सुदर्शन°,
 स्वयंज्योतिस्°, स्वराज्°, हंसा-
 त्ममालिकावर्ण°]

१महाहण- ४अ°, आभास°,
 गो°, इन्द्र°, १देव°, महत्°, १सर्व°
 २महाहण- मण्डल°

मह-नाथ- अनन्त°, निरतिशय°,
 २निरतिशयानन्द°,
 मह-चर्य- अस्तेय°, अहिंसा°,
 चतुर्विध°, चरित°, प्रणति°, २वेद°
 वेदोद्भाचरित°

मह-चारिन्- ४अ°, अनन्त°,
 आनन्द°, १कुमार°, २चैतन्य°,
 जीव°, १नित्य°, प्रकाश°, सु°,
 १स्वरुप°

मह-चैतन्य- अद्वैताख...त्मक°
 १मह-उत्तर- अतिमयंकरज्वर°

मह-तारव- विज्ञात°, स्वप्रकाश°
 मह-तेजस->महातेजो-मय->

१महातेजोमय-विल्व-रुपत-
 र-वन- अनन्त°

महातेजो-राशि- अनन्त°,
 समरत°

१मह-दशैव- अल्पपुत्रपुरीष-
 ...भाव°

मह-ना(डि)>डी- इच्छाज्ञान-

क्रि...न्तु°
 मह-निष्ठ- सनकरान...दि°
 मह-प्रणव- स्वस्वयानुसंधान°
 मह-पिल- नाभ्यादि°
 मह-भाव- -यम् श ३२:३:१°
 [°य- विज्ञात°]

मह-मन्त्र- पञ्चन्°
 १मह-महा(हा-श्र)णव- अरा-
 रडानन्दरीयूप...खु°
 १मह-माया(त्र-श्र)पलोकन-
 सर्व°

मह-मागं- तपद्°
 मह-यश- पूर्वोक्त°
 मह-रन्ध्र- मंत्राण्ड°, मूलादि°,
 गुलापार°

१मह-रन्ध्रा(त्र-श्र)न्त- ना-
 भ्यादि°
 १मह-रोक्षस- अरिष्टकारि-
 णी°, २कुरमण्ड°, दैत्य°,
 भूत°, वेताल°

मह-वन- अनन्त°
 १मह-वाचक- समस्त°
 मह-विद्- ४अ°, स्वधर्मनिरत°,
 मह-विधा- चाम् प्रवि १°
 [°घा- अनन्तादिन्यापार°, अप-
 र°, अपार°, कठवल्ली°, गारुड°,
 परमानन्दाद्युत°, श्रीमहागारुड°]

१मह-विष्णु-महेश्वर- -रात्
 प्रवि १°
 २मह-विष्णु-महेश्वर-
 १मह-शरीर-ज्ञान-लहरी-
 -री अद्वै २ध.

मह-संवित्ति- अद्वितीय°
 १मह-सुख- अनाधित°
 मह-स्तम्ब- आ°
 मह-स्थावर- आ°
 मह-स्वरूप- अद्वितीया...द°

मह-हरया- समस्तपा...तक°
 मह-हृन्- ४अ°
 महा(श्र-श्र)ण्ड- अन्तर्कोटि°,
 अनेककोटि°, १कोटि°, पिएड°,
 समस्त°

१महाण्ड-जाल- समरत°
 १महाण्ड-नायक- त्रिपुरहर°
 १महाण्ड-मण्डल- सकल°
 १महाण्डा(श्र-श्र)न्त- लि-
 तादि°

महा(श्र-श्र)द्वैत- -तम् त्रिवि
 ष्ट, २°
 १महा(श्र-श्र)नन्द- अनन्त°,
 अमनस्कमुस°, उक्त°, निरतिशय°
 निरतिशयानन्दखण्ड°, निरुपम-
 नित्यनिर...क°

१महानन्द(न्द-श्र)नुभव-
 पताका-पञ्च-सोरण- अनन्त°
 १महा(श्र-श्र)श्रुत-पान- चि-
 रसमाधिजात°

१महा(श्र-श्र)स्त्र- पाशुपताश्र°
 १महा(श्र-श्र)न्द-गंगाधर- लब्ध-
 विभव°
 महो(श्र-उ)पनिषद्- सौवाल-
 वीत्र°

वृहस्पति- शुक्र°
 १वैल(वैष्ण)वा(व-श्र)स्त्र-पाशुपताश्र°
 योधन-, बोधविन्-, बोधिन्-, बोध्य,
 बौद्ध- √बुष् (परि.) द.

√मू अतु°, अव°, प्र°, प्रति°, वि°
 १मव- अव°
 मुवाण- अनु°

भ

√भक्ष् सन्°
 भक्ष- अमृद्य°, अम्बु°, पयत्°,
 वातु°, सर्व°

a) अश्याः सं. अया. । b) बया. द. । c) धान. अया. । d) समहारे दस. । e) दस. (गप्र. दृ५९३)
 यनि. संख्यानिर्देशः द. । f) गप्र. (दृ५८५) १महान्->क्ष' इत्यत्र यनि. शोधः द. । g) °द्वितीयम् इति निसा. ।
 h) भावे कर्तारि वा छत्र ।

भक्षण- अभक्षन्, सम्, सर्वाप्त
भक्षित- उग्र

+भक्षिन्- केशचैलास्थि, रेतस्

+भक्ष्य सम्

भक्ष्य- ४अ

भक्ष्य-भोज्य- नाना

+भक्ष्या(क्ष्य-अ)दि- धूपादि-
त्रय

+भक्ष्या(क्ष्य-अ)ञ-पुष्प

भक्ष्या(क्ष्य-अ)ञ-पाना(न-आ)-
द्य- सर्व

✓भञ् (>बधा.) अनु, अन्वा, आ,
प्रवि, वि, संवि

२भक्त- ४अ, अतिसेवापर, अन-

न्य, अन्यदेवता, अन्वा, ईश्वर

ऐक्य, गुण, तद्, देव, परम,

परमाश्रित, प्रवि, भगवत्,

मद्, मन्त्र, वि, विद्या, विष्णु

शिव, सु, सूर्य, स्व

२भक्ति- अनन्य, आद्यनादि...

द, एक, ऐक्य, कर्मन्,

गुण, तद्, नाना, भगवत्,

मद्, महत्, श्रित, वि, विष्णु

शिव, भद्रा, सदसत्, सामा-

न्य, सु, स्व

+भक्ति-भार्ग-रत्- अतिशय

१भग- सु

१भग-वत्- चते रार २, ५४;
-वान् अक्षि १०; वउ ४, २३।

[> ध- श्री, श्रीकृष्ण]

भगवती-ती मउ ३, १३

भागवत- महत्

+२भग-वत्- २मातर

+भजन-भाव-, +भजन-योग्य-
नाना

+भज्य प्रवि, वि, संवि

भाग- ४अ, अग्र, अधकूर्व,

अघरोत्तर, अधस्, अन्तर्,

असूत, अर्ध, आग्नेय, २आज्य

ईशानदिश, उत्तान, ऊर्ध्व,

१श्रुत, एक, क्षेत्र, सुरीय,

१तुर्य, तृतीय, त्रि, १दक्षिण,

दक्षिणोत्तरदिश, निर, १पर,

पार्ष्णि, पूर्व, पृथिवी, पृष्ठ,

प्रवि, १फल, १बीज, भूमि,

मध्यमद्धार, महत्, मही, यथा,

२वाम, वि, १विष, वृत्त, व्यो-

मन्, शत, ६स, १सव्य, सा-

क्षिन्, सिद्धाजभो... क्ष

भाग-त्रय- अपकीकृत... श,

भूतसंघाश

भाग-धेय- किम्,

+भागधेयिन्- त्वद्

+भाग-माला->भागमालि-

(न्>)नी- कामेवरी

१भागिन्-

भाग्य- दुर्, प्रकृति, महत्

भाग्यो(ग्य-उ)दय- कियत्

+२भागिन्- गुणतद्, सुवैशुप्रह,

जन्मानर्ध, दु, ख, २भव

+भान्- अनन्य, अवस्थात्रय,

ऊर्ध्व, १काम, खेचरीसिद्धि,

प्रस्ताव, हिकार

✓भञ्ज् प्र, वि

भम- वि

+भङ्ग- देहशय, भूरि

+✓भङ्गि>भङ्गि->ङ्गी- २रक्ष

+भङ्गुर- पल्लवकोणा... कण

+भङ्गन, नी- गात्र, भङ्गार्ति, प्र,

१भनस्, हल

+भङ्गि(न्>)नी- महापाप

+भट्- चाट

✓भट् (>बधा.)> १भट्-द्रम् मउ९,

उ१०. [> द- ४अ, अति, चन्द्र,

१राम, वीर, सर्वतस्, सु, रू-

टिक

+भट्टा(द-अ)ञ- १नन्द

२भट्ट- रस्वस्तिक

३भट्ट->+भट्टा(द-अ)ञ-

एला

४-५भट्ट- गप, पृ६०३ द.

६भ(ट>)दा- १विस्व

१-२भय- ✓भी द.

१-२भर- १-२भरण, भरि-, भरित-

✓भृ (परि.) द.

+✓भल्ल् नि

१-२भयन-, भवित्-, भविष्णु- ✓भृ

(परि.) द.

✓भस् (>बधा.)>भस- स; छां ४,

३, ५^b.

भस्मन्- अतिप्राप्तिलोय, अमेय्य

काष्ठ, कुलालालय, गो, जटा,

तद्, नय, नवकारमशान,

परकृताभिचार, गृह, १शिव,

१शेय, सर्व, सु

भस्म-धारण- त्यक्ष, विधि

✓भा आ, उद्, प्र, प्रसि, प्रवि,

वि, संवि

भा- तद्, नि, प्र, प्रति, मंनि

a) गप. (पृ६००) यनि. संख्यानिर्देशः द. । b) अघ्याः सा. अपा. । c) गप. (पृ६०४) '१भवत्-> भवान्' इत्यत्र यनि. शोधः द. । d) घ. गप. पृ६२९C । e) गप. (पृ६०२) यनि. संख्यानिर्देशः द. । f) म्यु. 1 । g) अघ ५, ८२, ५ । h) 'रपसः' इति जेउ ३, २, ४ (द. टि. ३-५वा.) ।

भात- प्र०, वि०
भान- जगत०, तद्, प्रति०, मित्या-
त्व०

भानु- उः मउ ३, १०. [उ-
वरुण०, बृहत्, मार्ताण्डादि०,
१ मित्र०, वृत्, ६५, सहस्र०
१ भानु-ज^१- मोह०

+ भानु-मण्डल- स्वान्तर्विजु-
म्भित०

+ भा-व(न् >) री- वि०
१-२ भाग्निन्-, भाञ्-, भाग्निन्-
√ भञ् (परि.) द्र.

भाण्ड- ब्रह्माण्ड०, भग्न०, मल०, मृद्, सुप्त०

+ भाण्ड-समाश्रय- शिक्य०

भाण्डीर- ३ भद्र०, वट०

+ भाण्डीर-वट- महत्, साधनवट०

भाण्डीर-वन- मधुरावन०

√ आम> २ भाग- २ भव०, १ सत्य०

१ भारत- ग५, ५६०६ द्र.

२ भारत-> १ भारती-> २ भार-
ती- स्त्री म ४९ : १.

३-४ भारत- ग५, ५६०६ द्र.

५ भारत- महत्

भायक- १-३ भावन-, भावितव्य-,
भायक- √ भू (परि.) द्र.

√ भाप् अमि०, आ०, परि०, प०, वि०,
सम्

+ भाषण- भाचार्य०, १ गुण०, चिदह-
म्, देश०, द्वैताद्वैतादि०, १ पयु०,
प्र०, सम्, हु०

+ भाषमाण- सम्

भा(प >) पा- परि०

भाषित- सुनीन्द्राश्रय०, वि०, १ शिव०

+ भाषिन्- अन्त०, उपास्यदेवता,
मृदु

+ भाष्य आ०

भाष्य- उष०

+ भाष्यमाण- सम्

√ भास् > सि भाव०, आ०, निद्, प्रति०
भास्- आत्मन्, प्रति०, स्व०

भास्कर- ४ अ०, मार्ताण्डादि०,
१ मित्र०

+ भास्कर-विषय- उदय०

भास्वत्- उद्यन्, शशिकला०

+ भास्- भाव०, आ०, निद्, प्रति०

भासक- भाव०, जगत्

भासयद्- भाव०

भासित- अमिदोत्र०, प्रति०, महा-

विद्यासंचयप्रभा०

भासुर- कोटिसूर्यप्रभा०, यकाराक्षर०,
लायययवा...टित्, हकाराक्षर०

१ भास्वर- आ०, दीपज्वाला०,
रशुक्ल०

+ २ भास्वर (>) रा...- विराजा०

√ भिच् > १ भिक्ष- दुर्, सु०

२ भि(त् >) क्षा- आगन्द०, एक०,

दण्ड०, देवाचन०, निद्रा०, पिशा-

च०, राज्य०

० भैक्ष-> भैक्ष-चर्य- चानुर्व-

रवै०

+ भैक्षा(त्-ञ्) टन-पर-

सार्वभौक०

भिक्षा-मात्र- त्रेण पदं १५० :

१८१.

भि ज्ञा(त्वा-श्वा) शिन्- अकल्पित०

भिसु- देशावास्तु०

√ भिद् > भेदि अतु०, उद्, निद्, प्र०,
वि०, विनिर्, सम्, समुद्

+ भिक्षि- अण्ड०, ३ चित्र०, सुवर्ष०

+ भिद्- उद्, महावज्रकण्ठ०

+ भिद्य निद्, वि०, विनिर्, सम्

भिद्य- ४ अ०, एक०, गुण०, द्विधा०,
निर्, बहु०, भिद्य, मद्, वि०,
शुक्ल०, पदस्वर०, सम्

भेद- ४ अ०, अंशत्...रूपान०, अज्ञयो-

र्य०, अद्भरत्, अत्यन्त०, अपचन्०,
अभ्यास०, अवस्था०, अवस्थेधर०,
अवान्तर०, अष्टादशन्, अष्टावि-

शति०, अष्टाविंशत्युत्तरशत०, आ-

चार०, आत्मन्, आध्यात्मिका-

दि०, आसन०, उधैरपंगु०, उप-

देश०, उपाधि०, एकविंशति०,
एतद्वायु...धि०, औपाधिक०,
कटकमु...दि०, रकति०, कर्तु०,
कारण०, कार्य०, कार्यकारणोपा-

धि०, रकाल०, कूटरधोपहित०,
किमा०, गीतिस०, गुण०, गुणपरि-

णाम०, गुरुशिव्यादि०, प्रन्धि०, घ-

टिकाष्ट...धि०, चतुष्पष्टि०, यित०

जगत्, जगदीशजीव०, जाम्बलप्र-

...स्था०, जाल्यन्तर०, जविधर०,
तत्कार्यकारण०, तप्तदृष्टित्वामा-

र०, तत्त्व०, तद्, तदनुष्ठान०,
तद्गुणकर्मविभाग०, १ त्रिगुण०,
त्रिदशस्थानं, दिनपञ्चमा...दि०,
दुःखोदि, देश०, देह०, देहान्भक्त

० दि०, द्विचन्द्र...प्यादि०, नाडी०,
नानात्मन्, नानाभाव०, नानासुग-

न्धरस०, निरयनुभभाव०, निद्, पञ्चमास...र०,
पञ्चविप्लादि०, पहाशत०, पर्वततृत्त...धस्तु०,
पाद०, प्र०, प्रकरण०, प्रकृति०, प्र-
वृत्ति०, प्रैप०, गहु०, बाह्य०, बुद्धि०,
१ ब्रह्मन्, भजन०, भावाभावादि०,
मधुराम्बति...ण०, मननध्यान०,
१ मनस्, १ मरुत्, १ मायोपाधि०,
माण०, रतिरसभाव०, रस०, रस-
भाव०, २ राग०, रेचकपू...क०,
लिङ्ग०, १ वरण०, २ वर्षा०, वस्तु०,
वस्त्रसुगन्ध०, वायु०, वि०, विद्यादि-
साकार०, विद्याविद्यादि०, विपर्यय०
विशुद्धवैकु...नस्तु०, १ विरव०,
विश्वतै...स्थ०, विषयदेवताकोश०,

a) ग५, (५६०६) यनि. संख्यानिर्देशः द्र. । b) =संन्यासिवर्गविशेष- । c) =प्रन्धविशेष- । d) ग५, (५६०७) यनि. संख्यानिर्देशः द्र. । e) व्यु. १ =नाडीविशेष- । f) निरसा. श्रपा. । g) क्या. द्र. =विष, उग्रनिषदिशेष- ।

वेधायथे°, व्यक्ति°, व्यूह°, शक्ति°, शब्दादि°, शरीर°, शोभा°, षोडशन्°, षोडशस्वर°, संस्कार°, सदसत्°, संन्यास°, सम्°, समुद्°, साकारनिराकार°, सुगन्धवृत्त्यु°, १सूर्य°, १सेतु°, स्थिति°, स्त्रीपुमादि°, स्थान°, स्थूलसूक्ष्मतर° स्तु°, स्थूलसूक्ष्मबीजसाक्षिन्°, स्व°, खरव्यञ्जन°
 +भेद-विधि- अक्षमाला°
 भेद-व्यपदेश- विशेषण°
 भेदा(द-श्च)भेद- आत्मानाम- विवेकादि°, भूमि°
 +भेदक- वि°
 भेदन- १अज्ञान°, सर्वविषभू...दि°
 +भेदिन्- वाराह्यादि°, स्थलजला- मिमर्म्न्°
 +भेष वि°
 +भेष- दुर्°, प्र°
 भिपज्- शत°
 +भिपज्य- दुर्°
 भिपज- औपध°, मन्त्र°, सर्वसंसार°, सर्वाधिब्याधि°
 +भिपजी- जलास°
 भिपज्य- गुह°
 √भी, > भीषि वि°
 १भय- ४अ°, अल्पकाल°, आज्ञा°, इच्छा°, १काम°, कायकलेरा°, २काल°, कालधर्म°, किम्°, १सुप्°, गर्भवास°, जगत्°, जरा°, दुःख°, दुःख°, दुर्भिक्षादि°, १द्वैत°, निदा°, निद्रा°, निद्र°, गदु°, २भव°, महत्°, महा- व्याधि°, १मृत्यु°, १राग°, १राग° विगत°, शोक°, संपरुजचो...ल°, सर्व°, सर्वजीव°, सर्वरोग°, हर्ष°
 भय-कर- उग्र°
 +भयकर-ज्वर- अति°
 भय-प्रद- भूत°

भी- विगत°, व्यपेत°
 भीत- पात°, २भव°, भीत° वि°
 भीति- अखिलभूत°, २भव°
 भीह-> भैरव- उग्र°, गणेश°, २त्रिपुर°, भूत°, महत्°, महा- काल°, महात्रिपुर°, शरमसालुव°, २सौम्य°
 +भैरवा(व-श्र)चैन- त्यक्त°
 भीषण, णा- ४अ°, अति°, जिज्ञा- स...र°, महत्°, रक्तलोचन°, वि°
 +भीषण-संहार- चन्द्र...लिन°
 भु- √भू (चपा.) परि. द्र.
 √भुज् (कौटिल्ये) परि°
 √भुज् (चपा.), मुनकु १प्र ३०: १°
 [अति°, अतु°, आ°, उप°, प्र°, सम्°]
 भुक्- ४अ°, अति°, अर्ध°, उप°, वृषलोपति°
 भुक्ति- उप°, तद्°
 +भुज्- अग्र°, आनन्द°, १ञ्चत°, गुण°, तत्फल°, पयोमूलफला- दि°, पराग°, प्रविविक्त°, भैक्ष°, १भोग°, यज्ञ°, यशशिष्टाश्रुत°, १विध°, शक्ति°, १श्राद्ध°, सकल- भोग°, सर्व°, सूक्ष्म°, स्थूल°, हविस°, हुत°
 भुज- अनेक°, चतुर्°, १दक्षिण°, दि°, महत्°, सरिजद°, सहस्र°
 भुज-ग-> +भुजगे(ग-इ)न्द्र- इन्द्रनाम°
 +भुजं-ग- आधिब्याधि°, १आ- शा°, दण्डाहत°, रज्जु°
 +भुजं-गम- अन्तरा°
 भुज- सम्°
 भुजनाम- ४अ°, अति°, गतु°, सम्°
 भोकु- ४अ°, आशना...र°, उप°, कर्त्तु°, २काल°, गुण°, गुणकेलि- ...र°, महत्°, १रति°, सुखदुःख°

भोकु-रव- कर्त्तुव°
 +भोकु-भोग-भोग- कर्त्तुवर्म- कार्य°
 +भोह्यमाण- सम्°
 १भोग- अत्यन्तपवीण...रिण°, अ- नन्त°, अनेक°, आ°, आशना...भो- कृ°, आनन्द°, उप°, १काम°, की- डा°, २जाति°, तद्°, दिव्यस्त्री°, १देव°, देवस्त्री°, देवेन्द्र°, नाना°, परंपर(शृङ्गारसु...ख°, पुनर्जनन°, ब्रह्मादि°, २भव°, मुक्त°, भोकृ°, म- त्यु°, महत्°, रत्न°, रस°, रसदातु°, २राग°, २लीला°, विचित्र°, विषय°, २शची°, शृङ्गार°, शृङ्गा- रादि°, सकल°, सम्°, सर्व°, सर्ववै- तन्य°, सिद्धाज्ञ°, सुख°, सुगन्धम- णिमय°, १सुरत°, १दुरतानन्द°, स्वरस°, स्वर्ग°, स्वात्मन्°
 +भोग-प्रिय- अति°
 +भोग-रस- अनेक°, नाना°
 भोगा(ग-श्रा)दि- न्यः अक्ष २, ४३.
 १भोगिन्- भोगे(ग-इ)च्छा- प्रक्षीण°
 भोग्य- भोकृ°
 +२भोगिन्- १फल°
 +भोज- कुन्ति°
 भोजन- ४अ°, अर्चन°, उच्छिष्ट°, १कया°, चौर°, चीराज्य°, चौर°, पांसु°, पुनर्°, प्रावरण°, मिल°, रेत°, २वर्ण°, विद्वार°, राध्या°, शुद्धात्म°, शुद्धसिन्धुपा- त°, रक्षाक्ष°, सम्°, २सह°, दु°, गुणीर्णमित°, स्नान°
 +भोजिन्- अल्प°, शीर्णार्णफल°
 +भोजि(नि>)जी- मु-
 भोज्य- ४अ°, मद्य°, भोकृ°, गम्°, दु°
 भुज्- √भुज् (चपा.) परि. द्र.

B) गण. (१११०) '१प्र सा' इत्यत्र यनि. शोधः द.। B) गण. (१११२) यनि. संस्थानिर्देशः द.। C) धा. सधेः।।

+भुज्य- -> भुज्य-वन- मयुरावन°
भुसुराड- रसंवर्तक°

√भू(°मधा.)> भावि, भवेत् जाद३, ६, ३° [अङ्करी°, अद्वैती°, अतु°, अतु-प्र°, भन्तर्°, अन्तर्भुली°, अभि°, अभिसुली°, अभिसम्°, अमनी°, अमृती°, अविना°, अविषयी°, अव्यक्ती°, अव्ययी°, आ°, आ-एडी°, आर्जवन्वी°, आविस्°, उद्°, उउन्मनी°, एवी°, कुएड-ली°, कृशी°, केवली°, तरवी°, तिरस्°, त्रेधा°, दृढी°, द्वैती°, निर्वासनी°, निरचली°, परा°, परि°, प्र° प्रत्ययु°, प्रादुस्°, वक्षी°, श्रुती°, मिथुनी°, मिथ्री°, मोक्षी°, वि°, विवशी°, व्यक्ती°, शिषी°, संवि°, सक्षी°, सम्°, समट°, समरती°, समुद्°, समुन्मनी°, स्तब्धी°, स्थिरी°, स्फुटी°, स्वयम्°, हृत्ती°]

२ भव- अति°, अनन्त°, अतु°, अभि°, आविस्°, उद्°, जगत्°, दिश°, परि°, पापहेतु°, पुत्रातनः°, पुनर्°, प्र°, मनस्°, वाच°, वि°, शस्य°, सखल°, सम्°, सम-तु°, समुद्°

+ भव-कारण- धनतर°

+ भव-मीति- भूत°

भव-सागर- विनिर्मुक्त°

+ भवा(व-अ)न्त-भूमि- मव्य°

भवा(व-अ)न्तर- द्विदि°

+ भवे(व-इ)न्द्र- धातु°

३ भव- चय नी ३° [°व- भुवन-धिपति°]

१ भवानी- १ आदि°

२ भवत्- अतु°

+ १ भवन्- अन्तर्°, अभि°, पुनर्°

२ भवन्- १ द्, रवे°, रस्°
+ भविष्- ४ अ°

+ भविष्णु- प्र°

मविष्यत्- भूत°

१ भाव- ४ अ°, अकर्म°, अराएड°, अम्राश्र°, असीत°, अत्यन्त°, अ-द्वितीय°, अनन्य°, अनारामन्°, अ-तु°, अनुप्राधानुप्राहक°, अन्तर्°, अन्तर्भुली°, अन्य°, अन्यथा°, अमनी°, अव्यक्त°, २ अस्त्°, अहं-कार°, १ अहम्°, आत्मन्°, आप-क्ष°, आविस्°, इदम्°, इन्द्रियादि°, ईश्वर°, उपाधधम°, उदासीन°, उउन्मनी°, उपकार्योपकारक°, उपरज्योपररक्षक°, एक°, एकात्मन्°, एतद्°, एवम्°, कला°, कारण°, कार्यकारण°, कृत्स्न°, १ कृपा°, केवली°, गतिरति°, गुणप्रधान°, शुभशास्त्र°, गोपी°, प्राण°, १ चित्°, २ चैतन्य°, जगन्°, जा-ज्ज°, जीव°, तत्तद्°, तत्त्व°, तद्°, तिरस्°, दास°, दृष्टान्त°, देवास्तु... दि°, देह°, १ देहात्मन्°, दैन्य°, द्रष्टृदर्शनदृश्यादि°, १ द्वैत°, द्वैती°, नर्°, नाना°, नानाशरीर°, निगूढ° निर्°, निर्वासनी°, निश्चली°, नि-ष्पन्द°, नृल°, पुम्°, प्रति°, पूर्व°, पृथक्°, प्र°, प्रतिबिम्ब°, प्रत्यक्ष°, प्रादुस्°, १ ब्रह्मन्°, भजन°, भूत°, भोक्°, मकार°, मद्°, मनस्°, मनोभव°, २ मानृ°, यथाश्रय°, रक्षस्°, १ रति°, रतियोग्यता°, रतिरस°, रस°, २ खोला°, वि-रण°, विज्ञानादि°, विनय°, विमूढ° विरह°, वैराग्य°, शीतमन्दधुग्भि° शुद्ध°, शुद्धचैतन्य°, शुभतर°, शून्य°, श्रवणकीर्तन... रय°,

द्वस्°, पय्°, ६ स°, सार्त्ती°, १ सत्° संतत°, १ सम°, समरती°, समु-न्मनी°, सार्वे°, सर्वारनन्°, २ सह°, सहज°, साधु°, सावधान°, सुपुत्र°, सुरिषरी°, सोहम्°, स्तब्धी°, प्रेह° स्व°, स्वयम्°, स्वस्वामिन्°, स्वा-त्मन्°, स्वामिन्°, श्राव°

+ भाव-यद्- सर्व°
+ भाव-भूत- कृत°
+ भाव-स्वरूप- भावा(व-अ)-पद्म- अति°
भावा(व-अ)भाव- अवस्थाप्रय° रूपशोभासं... ना°, विधूत°, संयुष्°

- भावाभाव-दहन- पत्राव-... तु°
+ भावे(व-ए)क- निरस्ताति... ख°

+ भावक- ४ अ°
१ भावन- ४ अ°, अत्यन्त°, अतु°, अभेद°, आत्मन्°, उद्°, चेत-कर्तृत्व°, दृढाभ्य... क°, १ द्वैत°, प्रतिपत्°, १ ब्रह्मन्°, २ भव°, श-च्चार्य°, सूक्ष्म°

+ २ भावन- भूत°, १ विरव°
३ भाव(न°)ना- नायाः भाइ ३° [°ना- अद्वैत°, अनन्य°, अतु°, अन्तर्°, अभाव°, अभेद°, आका-श°, आत्मन्°, आत्मभाव°, आर्ज-वन्वी°, कठ°, जीव°, १ दृढ°, नक्तिधित्°, पदार्थ°, २ प्रपन्°, २ भव°, १ भाव°, १ ब्रह्मन्°, रति-रस°, वि°, संसार°, सद्भाव°, समाधि°, ज्ञात°, सुख°, सोहम्°]
+ भावना-विषय- व्याणाम् भा ३ ३°

भावयद्- ४ अ°, पत्°

a) व्यु. अर्थध ? । b) अख्याः यो. अया. । c) आन. अया. । d) भाप. । e) अधिकरणे क्त (गण. ५६ १४ यनि. संख्यानिर्देशः द.) । f) भाप. (गण. ५६ १६ यनि. संख्यानिर्देशः द.) । g) कर्तरि क्त । h) वया. द. । = भाप., उपनिषदशेष- । i) तान्त्रि. अया. ।

भाबित-अनु°, आत्मरस°, १काम°, तद्°, तद्भाव°, नित्यविहार...व°, २भक्ति°, सुनि°, यज्ञ°, यमनियम-प्रा...सुख°, वि°, १विश्व°, व्रजा-विर्भाव°, १शिव°, सम्°, सूत-पुष्प...ज्योत्स्ना°
 †भाबितव्य- परि°
 भाबित्, नी- अवरयम्°, अविना°, आविर्भावतिरोभाव°, तद्भाव°, भू-त°, यावदात्म°, यावद्देह°, सम्°
 †भावुक- अत्यन्तप्र...भोग°
 भाव्य ति°, सम्°
 भाव्य- अविना°
 †भु- आ°, प्र°, वि°, संवि°, स्वयम्°
 २भुवन- नानि मत् २, ४७: [न-तत्तद्°, चतुर्दशान्°, त्रि°, १वक्र-न्°, वैकुण्ठ°, सकल°, सामस्त°]
 भुवना(न-आ)कार-सिंहासन-ऊर्ध्वाम्नाय...श°
 भुवसा।>इ- भू°
 भुवर-लोक- भूलोक°, मूलोक°
 १भू- १अज्ञान°, कर्मन्°, गर्भ°, चतु-ष्टा°न्त°, ज्ञ°, सु°, १धन°, प्रति-ष्ठा°, वेद°, १भोग°, मरु°, स्वर्ग°
 †भू-चक्र- अष्टशुक्लाक्षित°
 भू-तल- अशुद्ध°
 भू-पल- १वाङ्मय°
 भू-पुर- प्रथम°, बहिष्°, मध्य°
 †भू-मण्डल- आ°
 †भू-रुह- ४करप°, २सु°
 †भू-चाचक- -कः गोरू १°
 २भू- अन्यतस्°, अभि°, तद्°, परि°, प्र°, १वक्रान्°, मयत्°, वि°, २सद°
 भूत- तानाम् कुं २३: २: [१त-४भ°, अखिल°, अतीन्द्रिय°, अद्वैती°, अधि°, अनन्ता...रुट°, अनादि°, अंजु°, भुजम्°, अन्वर्°, अक्ष°, अपर्षाकृत°, अभि°, अव-

यव°, अविद्या°, अविश्रयी°, अव्य-ह्नी°, अव्ययी°, अशेष°, १असुर°
 अग्नन्त्°, आत्मरक्षा...म°, १आ-दि°, आधार°, आविष्°, आशि°, इत्यम्°, ईश°, उद्°, उपाय°, एक°, एकी°, एवम्°, काम-कला°, कारण°, कुण्डली°, कोश°, चतुर्°, जीव°, तस्वी°, तथा°, तद्°, तेजस्°, दशप्रकार°, दारु°, दास°, दासी°, दिग्भावादि°
 दृढी°, १देव°°, द्विधा°, द्वैती°, धर्मिन्° २निरवास°, नैवेद्य°, पञ्चन्°, पञ्चीकृत°, परमकारण°, परमरहस्य°, पात्र°, पृथक्°, प्र°, प्रति°, प्रत्यच्°, प्रत्यनु°, प्राकारय°
 प्रादुस्°, १वक्रान्°, २भव°, १भा-व°, भूत°, मत्सार°, मन्थन°, महत्°, अमित्र°, मिथ्या°, मिथी°, मूर्ति°, २यक्ष°, यथा°, रयि°, रयिभूत°, ललान°, वरवेशमन्°, वि°, विवशी°, विशेष°, १विष्°, व्यह्नी°, शक्ति°, शिवादिशक्त्य-न्तराल°, शिबी°, शून्य°, १वष्°, तम्°, समुद्°, सर्व°, सर्वकारण°, सर्वपरिपूर्णतुं हान्°, सर्वसंपत्ति°, सर्वान्तर°, साक्षिन्°, सार°, सु°, सुप्त°, सूक्ष्म°, स्थाणु°, स्थिरी°, स्थूल°, १स्वरूप°, स्वारा°, स्वा-त्मन्°, हस्ती°, दाहा°]
 भौतिक- भूत°
 भूत-गण- गन्धर्व°
 भूत-ग्राम- चतुर्विध°
 †भूत-प्रेत-पिशाच- अरिष्टका-रित°
 †भूत-प्रेत-पिशाच-महाराक्ष-शाकिनी-हाकिनी-काकिनी-हा-किनी-याकिनी-राकिनी-लाकि-नी-वेताल-कामिनी- अष्टादश-

कोटि°
 †भूत-प्रेत-पिशाच-भैरव-दुर्गा-हनुमद्-गणेश्वरा(र-आ)दि-सकल-किस्त्रिय- परप्रयोग°
 †भूत-मण्डल- महामण्डल°
 †भूत-शरीर- असुरराक्ष...दि°
 भूत-संघ- आ°
 भूता(त-आ)मन्- रमा ससा १, २२: d.
 १भूति- ४अ°, प्र°, भूयम्°, भूः°, वि°, विष्णुपूजित°, स्व°
 २भूति- गद्, ५६२० द.
 ३भूति°-
 †भूति- अनु°, अभि°, आ°, उद्°, सम्°
 भूत्वा अनु°, अभि°, अमृती°, एकी°, कुरी°, घृणी°, स्थिरी°
 †भूय अङ्कुरी°, अनु°, अभि°, एकी°, त्रेधा°, मङ्गी°, स्वयम्°
 †भूय- असुन्न°, वारमन्°, एक°, एक-धा°, १वक्रान्°, १मेघ°, १सत्य°
 †भूयमान- अभि°
 भूमन्- अध्यात्मसंबन्ध°, परमानन्दैक°, सुपूर्ण°
 भूमि- अनु°, अनेक°, आकारा°, गन्ध°, गो°, २जल°, जाम्बूनदुचर्षण°, १ज्ञान°, तट°, तुरीय°, १तुर्य°, तेजस्°, १दद°, यावा°, पथन्°, पथम°, पथयोजन°, पितृ°, प्रान्त°, भवान्त°, मणि°, मथिमय°, मरु°, महत्°, १मान°, विभव°, धी°, पष्ठ°, सतत्°, सतम°, सर्व°, सुपर्ण°, हाटक°
 १भूमि- धि°, पथन्°
 †भूमि(क)- अलम्ब°
 २भूमि(क)>का- निष्पत्ति°, प्रथ-म°, प्रथमदि...य°, महत्°, २यो-ग°, पृष्°, सतत्°

४) भा ८, ३६ । ५) ब्रह्म, अथा । ६) अथवा: सं. अथा । ७) सु. गद्. ५१०८२h । ८) गद्. (५६२०)

१भूति- इत्यत्र यति. सोधः द. । १) भाप. । २) गद्. (५६२१) यति. संयथानिर्देशः द. ।

+भूमि-पाल- ४३०
 +भूम्य(मि-अ)भिमन्त्रग-जल...न०
 भूय,भूय-, भूयमान- /भू. (*वधा.)
 परि. द.
 भूयस्- १३६२
 भूयस्-स्व- लिङ्ग
 +भूयो-दशान- तद्
 भूर->भूर-भुवस्-स्वर-ओक-स-
 मासीन-तत्-स्व०
 भूरि->+भूरि-घञ्- सुगुञ्
 /भूप वि०
 भूपण- १अज्ञ०, अनन्त०, आसन०,
 कनकव...त०, कर्ण०, कामदेवदु-
 न्दुभि०, १नाग०, १दाक्ष०, १नक्ष०,
 वि०, १धृष्टार०, समस्तासा...व्य०,
 सर्व०, सुवर्ण०
 +भूप(>)या- कनकचम्पकदामन्,
 जानकीदेहि०, विलिप०, हारणैविय०
 +भूपि- भूषण०
 भूपित- ४अ०, अम्बुमण्डल०, आल०
 ओंकारस्वर०, घण्टाचामर०, जटा-
 कुमुम०, जाम्बूनदसुवर्ण०, नगेन्द्रा-
 षक०, नागोभरण०, भसिताह्वदि०
 ३भूति०, मालतीदामन्०, मेखला-
 त्रय०, राजावली०, राश्यादि०, वि०,
 श्रीमद्रोपुर०, सर्वभूषण०, सर्वाभ-
 रण०, सर्वालंकार०
 /भू अतु०, अव०, आ०, नि०, प्र०, सम्०
 विभ्रत्- ४अ०, अतु०
 १भर०- १रति०
 +२भर०- अमितम्०, १भ्रतम्०,
 निद्र०, ब्रह्मानन्दरसम्०, १विश्वम्०
 +१भरण०- आ०, भूतिशदात्०
 २भर(ण०)>)णी-
 २भरत्->भरद्-चाज- गीतम्०,
 गीतम्०, २निदाघ००, २वसिष्ठ००
 ३भरत्- शत्रुम्०, सीता०
 २भरत्- गपू, ५६२३ द.

३भरत्- महता०
 +भरि- आत्मम्०
 +भरित- आनन्द०
 भर्तुं-भूत०, लक्ष्मी०
 भार- काष्ठ०, कृश्रुम०, वृत्त०, जटा०
 प्राच०, १भू०, पन०, सम्०
 भार्य(>)यां- मुह०, गोत्र०, १ज्येष्ठ०
 तृष्णा०, दास०, शत०, स्व०
 भार्या-जगत्-मोहन-चक्र-
 धीचन्दन वलित०
 +भृत्- अद्विताह०, चना०, गोत्र०,
 देह०, प्राण०, भूत०, मही०, १वज्र०,
 विद्०, १विदव०, शरा०, २शर०,
 सर्व०
 भृत- आ०, नि०, सम्०, सु०
 भृत-क- निर्देश०
 +भृति- सम्०, स्वात्मभोग०
 +भृष्य सम्०
 भृष्य- गोत्र०, बहु०, ४मित्र०, ४मि-
 त्र००, समरत०, सर्व०
 +भृष्य-जन- चित्त०
 +भृष्य-परिचारक- ६त०
 +भृष्य- अव०
 १भृगु०-
 भागव- १ब्रह्मन्००
 +२भृगु०- संसार०
 भृङ्ग- धीमद्रमा...न०
 +भृङ्गार०- शुष्क०
 +भृङ्गि०- गणेश००
 /भृपु(<प्रहृज्),>भृष्ट- सम्०
 +भृष्टि०- १शर०
 भेक- कांस्थ०
 भेदक- भेदिन्- भेद्य, भेद्य- /भिद्
 (परि.) द.
 भेरि, री- जलाधि०, महत्०
 भोदयमाण- १-२भोगिन्- भोज-
 भोजिन्- भोजी- /भुज्(*वधा.)
 परि. द.

/अश्रु परि०
 +अंश- तद्०, २स्मृति०
 +अष्ट- अक्षरपद०, उभय०, २श्रुत०,
 परि०, २योग०
 /अश्रु. *वधा.)> अश्रु उदुर्, परि०
 वि०, सम्०
 अम- अनादिसंसार०, १शुष्प०, दिश०
 देहात्मन्०, पयन्०, फोयिन्त्रय०,
 पारमार्थिककर्मत्व०, २भव०, भेद०,
 वि०, विकारित्व०, विपरीत०, संसार०
 सत्यत्व०, सम्०, सर्वत्रय०, सुख०
 +अमण- १चक्र०, संसार०
 +अमण-शील- अति०
 अमत्- परि०
 १अमर, री- किङ्किणी०, कोकिल०,
 तद्रन्ध्रलोलुप०, प्रैलोक्यचित०,
 प्रैलोक्यान्तर०, दिग्भवानुम...
 चित०, दुष्टमह...न्त्र०, परम...
 न्त्र०, राजमन्त्र...न्त्र०, सकल-
 कामिनीमुख०, सकलदेवतामुख०,
 सकलदेशमुख०, सकलनखमुख०,
 सकलरात्रमुख०, सकललोकमुख०,
 सकलसुरारु...तन्त्र०, सिद्धम...
 न्त्र०, हरितपी...भ्र०
 +अमर-विक-शुक्र- उन्मद०
 +अमि- १चक्र०
 आन्त- उदुर्, वि०
 आन्ति- ४अ०, ईश्वर०, २घट०, तीर्थ०
 १समय०, सर्प०
 +आन्ति-दशान- व्याधि००
 /आज् वि०, सम्०
 +आजव्- वि०
 आजमान, ना- कपिलाकज...भ्रा०,
 वि०
 आजस->+आजव्-वत्- -वते
 मड २०, ८१५।
 आज- जाया०, वित्त०

a) गपू. (५६२२) तत्-स्व० इत्यत्र यनि. शोधः द्र.। b) गपू. (५६२२) यनि. संख्यानिर्देशः द्र.। c) कर्तरी
 क्त्.। d) कर्मणि क्त्.। e) गपू. (५६२३) यनि. संख्यानिर्देशः द्र.। f) व्यु. ? = प्रपातविशेष-। g) व्यु. -अर्थेय ?।
 व्यु. ? = पार्षदविशेष-। h) वैपश् यद.। j) 'आज्जय' इति मा ८, १०० (छं. टि. वैपश् यस्या.)।

३- १त्व००, वृष्टवश००, मणि०, ति-
रस्००
३-मध्य- -ध्ये शां १, ५. [°ध्य-
गत०, पाद००]
+ ३-लता- कामकार्मुक०
३-ए- १ब्रह्मन्
३-ग-हत्या- समस्तपात...क००
३-ग-हन्- ४अ०

म

१म> म-कार- अकार००, पञ्चन्
२म- √मा (माने) परि. द्र.
मकर-> मरु(कुण्डल- स्फुरत्
मकरन्द- अनन्त०
मल्लिक- १मधु०
मख- मङ्गल०
२मघ-> मघ-वन्- वा मघ२०, ३९०
३म(घ>)घा-> माघ-> +माघा-
(घ-आ)दि-द्वादश-मासा-
(३-आ)धिपति- अरुणधर्म...
घ्णु०
१मङ्गल- अति०, दिव्य०, १नित्य०,
परम०, महत्, सर्व०, सु०
+माङ्गल्य- १सर्वमङ्गल०
+मङ्गल-का(ष्टक>)ष्टिका- १वंद०
+मङ्गल-पाठक- गेय०
+मङ्गल-महा-वाच- दिव्य०
+मङ्गल-वाच- नाना०
+मङ्गल-विग्रह-, +मङ्गला(ल-आ)-
लय-, +मङ्गला(ल-आ)सन-
दिव्य०
√मञ्जू (<मस्त्व) उद्, नि०, प्र०,
सम्
मम, प्रा- अत्यन्त०, आनन्द०, आन-
न्दमनु०, गुण०, सन्मण्डल...
न्द०, धराविवर, नि०, परिपूर्ण...
श०, पुण्यमि...त०, प्रेक्षन्, माप०,
१रति०, रतिरस०, रत्न०, रसलीला०,

१मुरत०, सुरतान...न्द०
मज्जन- रचिति०, तद्, नि०
+मज्ज्य उद्, नि०
म(ज्ज)>जा- अस्थि००, १त्वच००,
मांस००, मेदस्, रस००, विद्, ००
मञ्जरी, री- अमृतरस०, आश्र, कद-
म्ब०, चरणकमल०
+मज्जिष्ठा<->माञ्जिष्ठ- कौमुम्भ०
√मद्>मड- आनन्द०, गोषघ्न०,
२घट०, ज्योतिष्, ३शारदा०,
शृङ्गेरी०, सुमेरु०, सुरोभन०
मडा(ठ-आ)काश- घटाकाश०
मणि- अकृत्रिम०, आरक्त०, उदार्यम्,
केराच्छद्राचि...त०, चन्द्रकान्त०,
निन्ता०, चूडा०, २जल०, जाम्बू-
नद०, ज्वलत्, तिलक००, तुलसी-
दास्, नाना०, १नील०, नीलपीत-
रक्त०, पद्मराग०, पद्मरागु...का-
न्त०, पाषाण००, पुष्पराग०, प्रति०,
१फल००, मध्य०, १मनस्, महा-
ज्वाला०, २मुक्ता०, मेधास्पर्श०,
रत्नवर्ण०, लघुकोमल०, १लोह०,
निविध०, शिखा०, शिरस्,
२शुभन्ध०, सुवर्णजडित०, सूर्यका-
न्त०, स्फटिक०, हस्ताहु...त०,
हाटक०, हाटकजडित०
+मणि-गण- चित्रित- मध्यस्थल-
जाम्बूनद्...मि०
+मणि-पटिका- सूक्ष्मतर०
मणि-ज्योत्स्ना- अत्यन्त०
+मणि-गुल्फक- सुपोष०
मणि-बन्ध- शिरस्००
+मणिबन्ध-शूल०- शिरःशूल००
+मणि-मुक्ता- नाना०, रत्नपुष्प...त०
+मणि-रात्रि- आरक्तमणि...त०
मणि-रत्ना- अनेक०, २शुभन्ध०
+मणि-बही- मुरचित०
मणि-स्वभ- ३धर०
+मणिस्वभ-शत- २नानारत्न०

मण्डप- अष्टाक्षरी०, रत्न०, वाहन०,
सुवर्ण०
√मण्ड(°बधा.)> १मण्ड- गद्,
पृ६२८ द.
२मण्ड-> मण्ड-प- अनन्त०,
२पुर०, मणि०, महत्, मुक्ति०,
रत्न०, व्याख्यान०, शान्ति०, सत्र०,
सौवर्ण०, स्वर्ण०
३मण्ड-> मण्ड-ल- अखण्ड०,
अखण्डानन्दतेजस्, अग्नि०,
अजन्य०, अद्वयपर...र०, अनन्त-
दिव्या...ष्टि०, अन तपर...ष्टि०,
अनन्तोत्कटजलद०, अनन्तोत्कट-
ज्वलदर०, अपरिच्छिन्न०, अपरि-
च्छिन्नान...न्द०, अम्बु०, अक्ष०,
आकाश०, आदित्य०, आधिकारि-
क०, इन्दु०, इन्द्र०, ईशान०, कर्णकु-
...वि०, २कुबेर०, क्रीडा०, युद०,
२मह०, प्रहर्षि०, चन्द्र०, विद्रुपादि-
त्य०, द्विधाश्र०, जातवेदस्, आतु०,
ज्योतिष्, ज्वाला०, तत्फणा०,
तद्, तेजस्, २त्रिकोण०, ३ध्रुव०,
नाभि०, निरतिशयदिव्यतेजस्,
निरतिशयपर...शेष०, निरतिशा-
यानन्त...राशि०, निरतिशया-
नन्दतेजस्, निरतिशयानन्ददि-
...शि०, निर्यष्टि०, निर्वाण०, प-
ञ्चन्, परमतेजस्, परमम्...प०,
परमाधिष्ठान०, परि०, परिपूर्णच-
न्द्र०, वृष्टी०, प्रेतप्रिशाच०, फा-
लोर्व...शेष०, धोधानन्दमयान-
न्त...ष्टि०, १मङ्गल०, मङ्गारह०,
३भग०, भातु०, २भुवन०, १भू०,
भूत०, मणि०, मधुर०, मध्य०,
मध्याहार्क०, माधुर०, मुक्त०, १यम०,
योनि०, रत्न३मा०, रवीन्दु०, राश०,
१द्व०, १यदण०, वहि०, वहिशि-
रा०, वाचामगोचरा० रि०, वातु०
वायुकि०, विज्ञानानन्दप...न०,

विष्णु^०, रमज^०, शरिण^०, शीतां-
 शु^०, शीर्षान्तगतं, शुद्धानन्द-
 वि...ष्टि^०, रन्त्य^०, रपट्चक^०,
 संसार^०, सखी^०, सुख^०, सुपुत्राना-
 डि^०, १स्य^०, सूर्यचन्द्र^०, सूर्यतोम^०,
 सूर्येन्दुवहि^०
 *मण्डली- रसिम^०
 *मण्डल-म्राक्षण^०- ईशावा-
 स्व^०
 मण्डन- गोपीचन्दन^०, पुष्प^०
 *मण्डित- अनेकायुध^०, आत्मसमा-
 ...न्द^०, जटामुकुट^०
 १मण्डक- महत्^०
 २मण्डक->माण्डक्य- ईरा^०,
 २प्रश्न^०
 *मण्डलि^०- १वंश^०
 १मतङ्ग->*मलङ्ग-ज- दुष्ट^०
 १मातङ्ग- १मृत्यु^०
 २मतङ्ग- गण. ५६२१ द.
 ३मतङ्ग->२मात(ङ्ग)>की- महाम-
 ता^०, राजन्^०
 मत्सर- ४भ^०, काम^०, क्रोध^०, गत^०,
 जरा^०, निन्दा^०, १मुक्त^०, वि^०
 मात्सर्य- १काम^०, १भाव^०, मद^०,
 मद^०, स्नेह^०
 १मत्स्य- जन्मपत्त्वल^०, महत्^०, महा-
 जलौष^०
 √मध् निद्र^०, प्र^०, विनिद्र^०
 *मध- प्र^०
 १मधन^०- अनन्तान...र^०, १चित्^०,
 २दधि^०, निद्र^०, सु^०
 *२मधन^०- दशास्य^०, १मृत्यु^०
 *मधिन्- प्रज्ञा^०
 १मध्य- विनिद्र^०
 *मधिन्- प्र^०
 २मध्य, मध्यमान- √मन्ध् (परि.) द.
 √मद्, >माद् अट^०, भा^०, उद्, प्र^०

मत्त- उद्, प्र^०, महत्^०
 *मत्त-गमे(ज-द्)प्र- १मनत्^०
 मद्- भा^०, इम्, उद्, १काम^०,
 गृह^०, जरा^०, दम्भ^०, धनमान^०,
 प्र^०, मृग^०, लोभ^०, धी^०, ६स^०
 *मद्(द-ञ्च)श्चकार- माया-
 वाद्^०
 मद्(द-ञ्च)भिमान-
 मदन- अन्त^०, दुष्ट^०
 *मदितद्वय- प्र^०
 मदि(र>)श- आंमोद^०, मोह^०
 *माद्- प्र^०
 *मादिन्- उद्, प्र^०
 *माघत्- प्र^०
 १मधु- अमृत^०, २दधि^०, १देव^०, ६स^०
 मधु(, >धु)- कर->माधुकर- असं-
 क्तल^०
 माधुकर- करपात्र^०
 *मधु-पके- १पाय^०
 मधु-कट^०, चतुर्थांशवशेषक^०,
 प्रसक्त^०, संतोषामोद^०, सु^०, सुखि-
 रध^०
 *माधुर्यं- कटु^०, धैर्य^०
 *मधुर-साखा- आन्न^०, ताली-
 वन^०
 मधु-वन^०- मधुरावन^०
 २-३मधु- गण. ५६२१ द.
 *४मधु- ३भद्र^०
 *१मधु-क- सूर्य^०
 २मधुक-
 मध्य- अकारोकार^०, अयवेद^०, अमृ-
 त^०, अष्टदलकेसर^०, अरिथ^०, आ-
 कारा^०, आत्मन्^०, १आदि^०, आ-
 नन्दव्यूह^०, आलय^०, आवरण^०,
 एकदेशिन^०, कण्ठ^०, कनीयसी^०,
 २कन्द^०, करपुष्कर^०, कला^०, काम-
 परा^०, कामिनी^०, कुम्भ^०, कोदण्ड-
 द्यम^०, क्रोध^०, २रा^०, गर्भ^०, गांधा-
 रीरारवती^०, २घट^०, घटघट^०,
 १चक्र^०, चतुर्ग^०, चन्द्र^०, चन्द्रम-
 एडल^०, चित्त^०, जहा^०, २जल^०,
 जीव^०, तथक^०, तत्तदायर्ष^०, तद्^०,
 तन्नुपग्रह^०, तालु^०, तिल^०, तुन्द^०,
 तेजस्^०, तैल^०, त्रिपीठ^०, दाह^०,
 दीप्ति^०, दुग्धोदधि^०, १देव^०, देह^०,
 शुति^०, नवरेखाःस्वर^०, नाडी^०,
 नाद^०, नाभि^०, नासिका^०, विद्रा-
 यस्था^०, पक्ष^०, पङ्कज^०, २पट^०,
 पयस्^०, पितृहाण्डशिरस्^०, पितृ-
 भूमि^०, १पुराद्^०, २पुर^०, पुष्प^०,
 पूषापरस्वती^०, पृष्ट^०, प्रकार^०,
 प्रणव^०, प्रभा^०, बन्धन^०, बाहु^०,
 पिन्दु^०, वृन्दावन^०, भाटु^०, धू^०,
 झुगुग^०, मध्यमाङ्गुलि^०, १मनस्^०,
 मानस^०, मूलशृङ्गाद^०, मृदु^०,
 मेरु^०, यद्^०, यन्त्रोद्गतदु...न्त्र^०,
 यशस्विनीकुह^०, योनि^०, ललाट^०,
 रत्नरङ्गज^०, रथ^०, रवि^०, वहि^०,
 वेदि^०, व्यक्त^०, शक्ति^०, १घट्ट^०,
 शरीर^०, शाशिन^०, शिरस्^०, शि-
 रोललाटभू^०, शीर्षान्त...ल^०,
 श्रोत्राक्षि^०, २पट्कोण^०, षोडश-
 दल^०, सत्त्व^०, समूह^०, सर्वदिव्य-
 देह^०, सर्वलोक^०, सामन्^०, सूर्य-
 मण्डल^०, १सोम^०, सौवर्णाम्बुज^०,
 स्थिररङ्गम^०, स्वप्नकथा^०, स्वर^०,
 स्वर्णसिंहासन^०, ३स्वायत्वादक^०,
 इत्यध^०, हृत्पुण्डरीक^०, १हृद्^०,
 हृदयकमल^०, हृदयाम्बोज^०
 *मध्य-चिबुक- रञ्जित^०
 *मध्य-प्रदेश- मध्यमपाद^०
 १मध्य-म, मा- अनामा^०, २आच^०,
 उत्तम^०, चन्द्राक्ष^०, तन्त्री^०, तुन्द^०,
 नाभि^०, परा^०, बाह^०, धू^०,

द्वय^०, क्रोध^०, २रा^०, गर्भ^०, गांधा-
 रीरारवती^०, २घट^०, घटघट^०,
 १चक्र^०, चतुर्ग^०, चन्द्र^०, चन्द्रम-
 एडल^०, चित्त^०, जहा^०, २जल^०,
 जीव^०, तथक^०, तत्तदायर्ष^०, तद्^०,
 तन्नुपग्रह^०, तालु^०, तिल^०, तुन्द^०,
 तेजस्^०, तैल^०, त्रिपीठ^०, दाह^०,
 दीप्ति^०, दुग्धोदधि^०, १देव^०, देह^०,
 शुति^०, नवरेखाःस्वर^०, नाडी^०,
 नाद^०, नाभि^०, नासिका^०, विद्रा-
 यस्था^०, पक्ष^०, पङ्कज^०, २पट^०,
 पयस्^०, पितृहाण्डशिरस्^०, पितृ-
 भूमि^०, १पुराद्^०, २पुर^०, पुष्प^०,
 पूषापरस्वती^०, पृष्ट^०, प्रकार^०,
 प्रणव^०, प्रभा^०, बन्धन^०, बाहु^०,
 पिन्दु^०, वृन्दावन^०, भाटु^०, धू^०,
 झुगुग^०, मध्यमाङ्गुलि^०, १मनस्^०,
 मानस^०, मूलशृङ्गाद^०, मृदु^०,
 मेरु^०, यद्^०, यन्त्रोद्गतदु...न्त्र^०,
 यशस्विनीकुह^०, योनि^०, ललाट^०,
 रत्नरङ्गज^०, रथ^०, रवि^०, वहि^०,
 वेदि^०, व्यक्त^०, शक्ति^०, १घट्ट^०,
 शरीर^०, शाशिन^०, शिरस्^०, शि-
 रोललाटभू^०, शीर्षान्त...ल^०,
 श्रोत्राक्षि^०, २पट्कोण^०, षोडश-
 दल^०, सत्त्व^०, समूह^०, सर्वदिव्य-
 देह^०, सर्वलोक^०, सामन्^०, सूर्य-
 मण्डल^०, १सोम^०, सौवर्णाम्बुज^०,
 स्थिररङ्गम^०, स्वप्नकथा^०, स्वर^०,
 स्वर्णसिंहासन^०, ३स्वायत्वादक^०,
 इत्यध^०, हृत्पुण्डरीक^०, १हृद्^०,
 हृदयकमल^०, हृदयाम्बोज^०
 *मध्य-चिबुक- रञ्जित^०
 *मध्य-प्रदेश- मध्यमपाद^०
 १मध्य-म, मा- अनामा^०, २आच^०,
 उत्तम^०, चन्द्राक्ष^०, तन्त्री^०, तुन्द^०,
 नाभि^०, परा^०, बाह^०, धू^०,

अ) =तदाख्योपनिषदशेष- । b) सु. गण. ५७२९, p । c) भावे कृत् (गण. [५६२९] यनि. संख्यानिर्देशः
 द.) । d) कर्तार कृत् । e) भावे कर्तार वा कृत् । f) गण. (५६२९) मद्(दि-ञ्च)भि इत्यत्र यनि. शोधः द. ।
 ङ) म्यु. ?-अशोक- (=हृत्विशेष-) । b) गण. (५६२९) यनि. संख्यानिर्देशः द. ।

माय°, २मन्द्र°, मिलित°, मृदु°,
 रजमरुप°, विराजा°, पङ्ज°,
 सु°, हीन°
 †मध्यमा(मा-अ)नामिका- ख°
 †मध्यमा-वृष्ट- परस्पर°
 †मध्य-मणि°- धातु°
 मध्य-वर्तिन्- तदन्तर°
 मध्य-स्थ- उन्मीलितनिमीलित°,
 ३वाम° सुहृद्°
 मध्य-स्थल- मणिरागणचित्रित°
 मध्या(ध-अ)ङ्ग- प्रातद्°
 √मन्(बधा.)>मानि अनुसम्°, अ-
 मि°, अव°, गा°, प्रति°, वि°, सम्°
 मत- ४अ°, अभि°, अव°, २काक°,
 कादिहादि°, गुरु°, तद्°, बहु°,
 वि°, १वैखानस°, सम्°
 †मत्(त-अ)न्वर- जैन... जल°
 मति- ४अ°, अनु°, १अहम्°, आत्म-
 न्°, आदित्यादि°, आर्य°, आश्व-
 स्त° इत्यभूत्, ईशताकृत°, २कु°,
 क्रीडाविनोद°, गति°, गमनचाल-
 नवैराग्य°, गो°, तपस्°, दानादि-
 कृपा°, दुर्°, द्वेषकोप°, धर्मक्रीति°,
 निद्रालस्य°, पटु°, परमार्थ°, पाप-
 कर्महिंसा°, बुद्धि°, मनोभिज्ञ°,
 ममंती°, महत्°, साधु°, सु°, सुख-
 शृङ्गार°, १स्थिर°, स्वात्मन्°
 मात्वा ४अ°
 मनन- ४अ°, भा°, उपशान्त°,
 चीण°, बाष्प°, देहेन्द्रियनिग्रह°,
 ध्वस्त°, निद्र°, १मनस्°, २ध्वण°
 †मनना(न-अ)दि-परिभ्रम-
 चिरकालपरिचरीण°
 †मनना(न-अ)नन्द- निरस्त°
 १मनस्- नः मना २, ४२९; अशि
 ७००. [°स्- ४अ°, अनन्य°,
 अनुदिप्त°, अन्तःकरण°, अन्यत्°
 अवदात°, अवासान°, अविधान्त°

असंसर्ग°, आत्मन्°, आसक्त°,
 इन्द्रिय°, उत्कण्ठ°, उद्°, एक°,
 काय°, गोपीजन°, चतुस्°,
 १चित्°, ज्ञ°, ज्ञानिन्°, तद्°,
 धर्मक... वल°, नारायण°, निर्°,
 निर्वासन°, निर्विकल्प°, परिपूर्ण-
 पर... गन्°, पाद°, पृथिवी°,
 प्रभा°, प्रशान्त°, प्रसन्न°, प्राण°,
 प्राणादिपुर्ववायु°, प्रीत°, भूत°,
 मद्°, मन्मथे°, महत्°, राधा°,
 वाक्यार्थलब्ध°, १वाच्°, १वाच्°
 १विज्ञान°, विरक्त°, व्याकुलित°,
 व्युत्पन्न°, शरीर°, शान्त°, ५स°,
 सकल°, संकल्प°, समाहित°, सं-
 प्रीयमाण°, सर्वे°, सर्वजन°, साव-
 धान°, सु°, सुखसमाविष्ट°, सुपुत्र°
 १स्थिर°, स्नेहाविट°, ख°]
 मानस- अशान्त°, एकाम्°,
 कायिक°, कारण°, कुम्भका-
 विष्ट°, गम्यागमन°, चलित°,
 १तनु°, नियत°, पावन°, प्रयत°,
 भायामोहित°, सुदित°, २रमा°,
 १वाच्°, १वाच्°, सुद्ध°, शोकसं-
 विम°, सत्कथाक्षिप्त°, सत्यसंधान°
 मनः- प्राण°- ४अ°
 †मनः-शूलर°- शिरःशूल°
 †मनस- १वाच्°
 मनसि>मनसि-ज- अण्डज°
 †मनस(न्-क)- ४अ°, निद्र°, वि°,
 ६स°
 मनीषा- तद्°
 मनो-ज्ञ-> †मनो-ज्ञ-पाणि प-
 लुव- पाराङ्कुरा°
 †मनो(नस्-उ)खाद- अति°
 मनो-नाश- वासनाक्षय°
 मनो(नस्-उ)मन- वाचामगो-
 चर°
 १मनो(नस्-उ)म(नि>)नी->

†मनो-मध्य(नी-अ)नुभव- सं-
 विदित°
 मनो-बुद्धि- अर्पित°
 मनो-भव- १रति°
 मनो-भाव- नाना°
 मनो-मय- अन्नमय°
 †मनो-मोह- ४अ°
 मनोरथ- अखिल°, १काम°
 मनो-रम- मिथ्या°
 †मनो-विकार- पृथिवी°
 मनो-वृत्ति- २ब्रह्माकार°, सर्व°
 †मनो-सन्नन्- अतिज्ञेहसंकुलित°
 मनो-हर- अत्यन्त°, उजुग...
 म्भ°, सर्वात्र°
 †मनोहर-रूप- अति°
 मनो-हारिन्- सदा°
 १मनु- २कालिका°, ५तार°, ३त्रिपु-
 रा°, दुर्गा°, महत्°, माला°, मेल-
 न°, श्रीरामचन्द्र°, सर्वदुर्गा°,
 सिद्ध°, २सुन्दरी°, सीर°, खन्°
 २मनु-
 १मानव- ४अ°, भा°
 मनु-ज- तिर्यक्°
 ३मनु- प्रजापति°, वैवस्वत°
 मनुस्-
 मानुष- गोपीचन्दनसंसक्त°,
 प्रकृति°, २यद्य°
 †मानुष-चेष्टा(ष्टा-आ)-
 दि- अति°
 मनुष्य- १देव°, १देव°, १पितृ°
 मानुष्यक°-
 †मनुष्य(प्य-श्र)पि- देवपि°
 मन्तव्य- ४अ°
 मन्तृ- ४अ°, अनु°, अभि°, भव°
 मन्त्र- ४अ°, अक्षिल°, १भद्र°,
 अथर्वण°, अन्ध्यात्म°, अप्यात्म-
 शास्त्र°, २अनाहत°, अनु°, अक्षय-
 पौंशरी°, अन्य°, अष्टत्रिंशदशर°,
 १मनो(नस्-उ)म(नि>)नी->

a) सि १०, १५१, ३ (ठ. टि. वेणु यस्या.) । b) अन्ताः शी. अया. । c) दस. । d) बुन्-> अकः प्र.
 वसं. [पा ४, ३, १२० (एतदनु गृ. ५६३१मा यिन. लोपः)] ।

अधन्, अधवस्त्रे...दित्य, अध-
विध, २ अष्टावर, अष्टादशावर,
अन्न, आकारमूर्ति, आगम,
आत्मन्, आनुष्ठुभ, इत्यादि,
ईशान, एतद्, क्वचदिव्यभन,
१केवल, कौस्तुभवन...दक,
खेचरी, गाणपत्यादि, चतुविश-
ति, जन्मन्, तप्तद्, तव, तद्,
तद्, तद्रोम, तन्मूर्ति, तृष्णावि-
पूचिका, दक्षिणामूर्ति, दशाक्ष-
र, दशाक्षरादि, दिव्य, दीपन,
दुष्टप्रह, देश, द्रव्य, द्वाद-
शन्, १द्वादशाक्षर, नवाक्षर,
नामन्, नाणयण, नारायणह...
श्री, नारायणाक्षर, नीलकण्ठव्य-
...री, वृसिंहमन्त्र...म, वृसि-
हस्य...त्री, वृसिंहहय...म,
पद्मब्रह्मन्, पद्माक्षर, १पर,
परम, परिच्छेद, पारिण, पुराक-
कल्पित, पूर्वोक्त, प्रणव, प्रणवा-
दि, १धम, १बीज, १ब्रह्मन्,
ब्रह्मात्मसन्धि...क, मद्, महत्,
महानीलकण्ठ, माला, १मूज,
मूलबन्ध, मृत्युलाङ्गुल, मृदु,
१मोच, यन्त्र, याजुष, रस,
१राम, १रुद्र, लक्ष्मीनारायणह-
य...न, लय, लोकपाल, विद्या
विधिवद्गुरु...द, विध्युक्त, १वि-
रव, शरणाग...ख, १शिव,
शिवगाय...ह्वन्, शिवोमाराम,
श्रीराजश्यामला, श्रीराम, पड-
क्षर, षोडशाक्षर, ६स, संहिता
सकल, सप्तचत्वारिंशत्, सर्व,
सिद्ध, ६, सुदर्शनादिन्यास,
सूर्याष्टाक्षरी, खर, स्वराखाण्ड-
गत, स्वात्मन्, हंस, हंसःसोहृद्
हयमीषयद्...हृदयादि
†मन्त्र-तन्त्र-उपासक-

५न्
†मन्त्र-घन्त्र- १पर
†मन्त्र-घन्त्र-तन्त्र- १पर, रा-
जन्, सिद्ध
मन्त्र-योग- सर्व
मन्त्र-राज- वृसिंह, श्रीराम
मन्त्र-पर्ण- २मानृका
†मन्त्र-विद्या- महत्
†मन्त्रा(न्त्र-व्या)सन- सर्व
√मन्त्रि अनु, अभि, आ,
उप, उपनि, नि, सम्प
†मन्त्रग- अभि, उप, उप-
नि
*मन्त्रया- आ, उप
मन्त्रित- अभि, आ, नि,
संहितामन्त्र, सप्तप्रणव
†मन्त्र्य अभि, सम्प
†म(न्त्रक>)न्त्रिका... ईशा-
वास्य, सुबालजुति
†मन्त्रे(न्त्र-ई)क्षित-लाञ्छित-
यद्
मन्त्रमान- ४अ, परिष्ठतम्
मन्त्र्यु- आपन्त, उप, २अव,
युधा, १वीत, शान्त
मन्वान- ४अ, प्रति
१मान- ४अ, अति, अभि, अव,
दम्, १धन, निर्गोलित,
रास, शीत, सत्कार, सम्प
†मान-भूमि- कल्पित
†मान-मोह- निर्
१मानिन्- ४अ
†मानन- सम्प
†मानयन्- †मानित- अव
२मानिन्- अनुवान, अभि, ईश,
परिष्ठत, सर्वोहम्
√मन्थ अभि, उप, निर्, प्र, वि
†२मथ्य उप, निर्, वि
†मथ्यमान- अहुली

१मन्थन- २दधि
†२मन्थन- उप
†मथिधन्- ऊर्व
†मन्थर- भानन्
√मन्द्(यथा.)> १मन्द्- शीत
†मन्द्-कटा(ट घ)क्ष- २निज
†मन्द्-निर्- मोहन्
मन्द्दार- भास
†मन्द्दार-वेदिका- सत्यूर्ती
मन्द्दिर- १जनन, १निज, निय-
मत्रल, १पाप, १भय, मोह,
१रति, शय्या, हरि
मन्मथ- माया, लक्ष्मी, शक्ति, श-
क्ति
†मय- √मे(परि.) द.
मयूख- ज्योतिष्
१मयूर- हंत
२मयूर- रक्षसिक
मरकत- चम्पक, भुजलता...ख
१मरीचि- आदित्य, १स्य
मरीचि-(क>)का... मरु
२-१मरीचि- गड, ५६४३ द.
†६मरीचि- १मिज
१मरुत्-
मारुत- कालि...न्, प्रलय,
भूत, माया, २शस्त्र
मरुद्-गाण- ६स
मर्कट- चपल
†मर्कटी->मर्कटि-(क>)का-
विहा
मर्यु- √मृ(परि.) द.
मर्द्, १-२मर्दन, मर्दिन्- √मृद्
(परि.) द.
मर्मन्- मरणमो...क, स्थलजलामि
मर्य- √मृ(परि.) द.
मर्यादा, २- ४अ, कन्दुक, धृत,
२वेद, स्व
मर्श- मर्शिन्, मर्श्य- √मृश(परि.) द.

a) = तदाख्योपनिषद्-विशेष- । b) मृ. (५६४२) यनि. संख्यानिर्देशः द. । c) कर्तारि कृत् । d) व्यु. ? = १मन्- । e) व्यु. ? = पर्वतविशेष- । f) व्यु. ? = १स्ये- ।

मर्षण- √मृष्(परि.) द्र.
 मल- ४अ०, १अज्ञान०, अन्तर्०, अल-
 च्मी०, अविद्या०, आत्मन्०, आव-
 रण०, २कलना०, २नुत्पियासा०,
 त्रि०, दुर्०, निर्०, परि०, १पाप०,
 १मनस्०, मातापितृ०, मोह० रस०,
 वि०, संसार०, समाधिनिर्धूत०, स-
 माधिनिर्धूत०, सुषुम्नानाडीक्ष०,
 स्वदेह०
 +मल-स्वाव- १नवद्वा०
 मलिन- अत्यन्त०
 +मालिन्य- अन्त. करण०, चित्त०
 जन्मन्०
 +मलय०- महेन्द्र०, सुमेरु००
 +√मल्ल>मल्ल- चारूर०
 म(ल्लक>)स्त्रिका- ४जाति००
 मल्लिका-कुडुमल- द्वन्द्व०
 √मञ्ज>मशकं- दंश०
 +मस्- चन्द्र०
 मस्तक- आत्राय०, पाद०, पादतल०,
 पादादि०, भूमिविन्यस्त०, व्यष्टि०
 √मह्(वधा.)>महद्- ४अ०, अति०
 अत्यन्त०, वेत्०, प्रकृति०, भित्तु०,
 सु०
 महत्-तरव- प्रकृति०
 महत्-ता- चित्त०
 महत्-त्व- परम०
 महद्-भय- गर्भजन्म...सार०
 मंदा>मह(हा-ञ्च)र्षि- शौन-
 कादि०
 महा-काल, ली- अष्टन्०,
 गणेश०, नन्दि०, नन्दीधर०,
 १मद्वन्०, विरुपाक्ष०, श्री०
 महा(हा-ञ्च)कान- घटाका-
 श०
 महा-स्वग- अविश्रान्त०
 महा-नागपति- श्री०
 महा-गरुड- श्री०, धीमन्०

+महा-प्रन्थि- अविद्या०
 +महा(हा-ञ्च)कुर- अन्तर्ली-
 न...श०
 महा-चक्र- २द्वादशार०, ना-
 डी०, गुदरसन०
 महा-तल- अतल००
 +महा-ताल- ३भद्र००
 २महा(हा-ञ्च)श्मन्->मा-
 हारम्य- आदित्य०, बृन्दावन०,
 सत्सङ्ग०
 महा-त्रिपुर-सुन्दरी- श्री०
 १महा-दुर्गा-
 +२महा-दुर्गा>)गां- गाँवि
 मउ ३. १३.
 महा-देव- श्री०
 +महा-द्वार- चतुष्पथसमा-
 युक्त०
 महा-नदी- परगतेजस्०
 महा(हा-ञ्च)नन्द- अनानन्द०
 महा-नारायण- आर्षवर्ण०,
 २प्रश्न००
 +महानारायण-यन्त्र-
 परमवैकुण्ठ०
 +महा-नोलकण्ठ-मन्त्र-
 वर्ण- प्रणीवसंपुटित०
 +महा-नृ-सिंह- श्री०
 महा-पथ- दशनाडी०
 महा-पद्मक- अनन्त००
 +महा(हा-ञ्च)परमार- अ-
 तिमयंकरज्वर०
 महा-पातक- उपपातक०, प-
 श्वन्०, पातक००
 महापातको(क-उ)पपात-
 क- पथन्०, समस्त०
 महा-पाप- -पाव ग ४९७:
 ११.
 +महा-प्रणव-गरुड- आवि-
 र्भूत०

महा-प्रलय- आ०, प्रलय०
 +महा(हा-ञ्च)क्रिच- अजुह्व०
 महा-भय- गर्भज...र०
 महा-भूत- अपवीकृत०, पव-
 न्०, पवीकृत०
 महा-भैरव- अष्टन्०
 महा-मन्त्र- अजपासोहम्०,
 असिपद०, ततपद०, त्वंपद०, महा-
 वाक्य०, श्रीचन्द्रगुण०, श्रीसरस्वती-
 दशश्लोकी०, सप्तकोटि०
 महा-भाषा- विविधवि...न्त०
 +महामाया-जाल- अ-
 नन्त०
 +महामाया-विलास-
 अनन्त०, संकोचविकासालम्बक०
 +महामाया-विशेषण-
 अनन्त०
 +महामाया-शक्ति- अन-
 न्त०, विविधानन्त०
 महा-मार्ति- दैत्य००
 महा-सुदा- १शङ्ख००
 +महा-मूला(लि-ञ्च)विद्या-
 सविलास०
 +महा-मोहन-रूप- अति०
 +महा-यज्ञ- पवन्०
 महा-यन्त्र- निरतिशयप्र...ति०
 महा-योगिन्- सनकादि०
 महा-राज- अनेक०
 महा-रोग- भूतप्रेतपि...दि०
 महा(हा-ञ्च)णव- १मद्वन्०,
 भवभोग०
 २महा-लक्ष्मी- ३त्रिपुरा०,
 श्री०
 महा-लिङ्ग- विन्दुनाद०
 महा-लीला- लोक०, धृत०
 - महा-वज्र- चक्रकोणचतुष्टय०
 महा-वन- मधुरावन०, पद-
 न्वय०

a) द्यु. १ = परवतिरोप- । b) वैपरी यद. । c) गप्. (इ १४८) यनि. संख्यानिर्देशः द. । d) वधा. द. ।

महा-वाक्य^१- इत्यादि^०,
 तारसार^०, प्रणय^०, रंभन^{००}
 *महावाक्य-महामन्त्र-
 धी^०
 *महा-वाच- १मत्रेत्^०
 महा-विदेह(>)हा^०-
 महा-विद्या- धी^०
 महा-विष्णु- अण्डपरिपाल-
 क^०, केवलम...य^०, निरतिशया-
 ...ण^०, पुराकल्पि...य^०, धी^०
 *महा-वेदि- शिवयज्ञ^०
 महा-व्याधि- पापयोग^०, वा-
 तपित्तरलेपन^०
 *महा-व्रण- दारुमाणवृत्त^०
 महा-वाक्- अष्टन^०
 *महा-वाह-माला- वस्त्रा-
 लंकार^०
 *महा-शान्ति- १शिव^०
 *महा-शूलि(रु>)नी^०- न्यै
 मउ ३, १३.
 *महा-सेतु- भवोदधि^०
 महो(हा-ई)श- १महान्^{००}
 महो(हा-ई)श्वर- १महान्^०,
 भूत^०, लोक^०, विष्णु^०, विष्णु^{००},
 सर्वलोक^०
 माहेधर-> *माहेधर-
 ज्वर^१- अतिभयंकरज्वर^०
 *महो(हा-ऐ)श्वर्य- १पुत्र^{००}
 महो(हा-उ)श्वर- बोधा-
 नन्^०
 महो(हा-उ)श्वर- इन्द्रपरा-
 जय^०, तदर्थन^०
 महो(हा-उ)श्वर- शिवज्ञा-
 न^०, सु^०
 महो(हा-उ)श्वर- मुख्यानन्द^०
 *महो(हा-उ)श्वर^१- मदाशक^०
 महो(हा-उ)श्वर- किन्नर^{००}
 १महिमन्- अगाध^०, उक्त^०, एव-

म्^०, चन्द्र^०, २निम्न^०, मोह^०, स्व^०
 महय- आधातरक^०, १मित्र^०
 महर-लोक- जनोत्तक^०, भूमो-
 क^{००}
 २महिप- मदाग्यानामणि^०
 १महिपी- १धन^{००}
 ३महिप- मिश्रलसत^०
 *महिपा(१-अ)सुर- २मपु^{००}
 √मा(माने) अनु^०, अभि^०, अभिवि^०,
 उद्^०, उप^०, निर्^०, परि^०, प्र^०,
 प्रति^०, वि^०, सम्^०
 *२म, मा- उप^०, प्र^०, प्रति^०
 *मा(त>)ता^१- द्वियर्थ^०
 *माति^१- अभि^०
 १माह- निर्^०, प्र^०
 म, न, प्रा^१- ४अ^०, अंश^०, अकार^०,
 अहृष्ट^०, १अणु^०, अतिहृष्ट^०, अ-
 ह्यायानन्द^०, अद्वैत^०, अधि^०, अप्य-
 यन्^०, अनन्त^०, अनार्या^०, अनु-
 ष्ठान^०, अन्तःस्थसंविद्^०, अप^०,
 अपवाद^०, अभाव^०, अभ्यास^०,
 अर्थ^०, अर्थ^०, अर्थचतुर्थ^०, अष्टन^०,
 अष्टावि^०...भेद^०, असंकलन^०, अ-
 स्मिता^०, आकाश^०, आत्मन्^०, आ-
 नन्द^०, आमास^०, आराम^०, आलो-
 चन^०, आस्था^०, इच्छा^०, ईयन्^०,
 उच्चारित^०, उत्पत्ति^०, उदर^०, उदा-
 टन^०, उपार्जितवस्तु^०, २उपासना^०,
 एक^०, एकाह^०, एकाहित^०, एकैक^०,
 एतद्विज्ञान^०, १आकार^०, २कति^०,
 कथाश्रवण^०, १कथं^०, कायगो-
 पण^०, किंचित्^०, कृच्छ्र^०, क्षण^०,
 खद्योत^०, गोदोह^०, गोधूम^०, प्राप्त^०,
 चण^०, चतुर^०, चतुर्थ^०, चतुःपदि^०,
 १चित्^०, चिद्रूप^०, चिन्तित^०, चि-
 क्षिप्यन्दांश^०, चेतन^०, २चैतन्य^०,
 जन्मन्^०, जप^०, जात^०, जिह्वा^०,
 १ज्ञान^०, तडिदाम^०, तत्प्रमाजिन^०,

तद्^०, तदभावन^०, तदमार्जन^०,
 तद्वा^०, तावन्^०, तिल^०, तृण^०,
 युति^०, तेजस्^०, मि^०, रशि^०, दृष्ट^०,
 देह^०, द्वाधिशत^०, द्वादशरत्न^०, दि^०,
 दिहन्^०, १धन^०, २धारण^०, नामो-
 धार^०, नामोधारण^०, नाल^०,
 निरयशु...ता^०, निमेष^०, नि-
 स्तुलह...स्तु^०, पयन्^०, पाणि-
 पादादि^०, पिठरस्त्र...दि^०, पूर्व-
 भाविन्^०, श्रुतिवा^०, यज्ञा^०, प्रति^०,
 प्रतिपेथ^०, प्राणयात्रिक^०, शदिसा^०,
 प्राप्तवस्तु^०, श्रोतित^०, २स्तुत^०,
 यद्रीपाल^०, यन्धप्यंस^०, १महान्^०,
 यद्मविद्^०, यद्मवेदन^०, यद्मज्ञानाभा-
 स^०, ३भावना^०, २मिह्वा^०, भूत^०,
 १भोग^०, मनःप्रशम^०, १मनस्^०,
 मरुभू^०, मसूर^०, माया^०, माय^०,
 मास^०, १मुरड^०, १मुहूर्त^०, मृषा^०,
 मोह^०, १यव^०, मात्रा^०, २याम^०,
 २युग^०, २योजन^०, १रति^०, रोमन्^०,
 लक्ष^०, लेश^०, ३शकार^०, वस्तु^०,
 १वाच्^०, वायु^०, मालाप्र^०, २वास-
 ना^०, विज्ञात^०, १विज्ञान^०, विता-
 न^०, शरीर^०, शान्ति^०, शुक्लिका^०,
 २श्रवण^०, ध्रुत^०, परमास^०, पौड-
 शन्^०, १स^०, संकसर^०, संविद्^०,
 सङ्कल्पवृण^०, सङ्कदभ्यास^०, संक-
 ल्प^०, १सचिदानन्द^०, संशा^०,
 १सत्^०, सप्ता^०, सख्युत्पत्ता^०
 ति^०, सत्यविज्ञान^०, सदानन्द-
 चित्^०, संनिधि^०, मुख^०, स्तुति^०,
 स्वन्द^०, स्मरण^०, स्वदन^०, स्वर^०,
 स्वात्मन्^०, २हस्त^०
 *१मात्र(क)- आभास^०, एक^०,
 एतावत्^०, दि^०, भोगेच्छा^०, मापक^०,
 १यव^०, १सचिदानन्द^०, स्वात्मन्^०
 *मात्रा-चतुष्टय- २जापत्^०, उ-
 रीय^०, सुपुति^०, स्वम्^०

a) चप्रा. द. 1. b) गप. (६६५२) महा-विदेह- इत्यत्र यनि, शोधः द. 1. c) = गणदेषताविशेष- 1. d) इत्या-

*२मा(त्रक >) त्रिका- अर्ध°
 २मान- अतु°, अभिवि°, उद°, उप°,
 चूर्ण°, तदीय°, १देव°, देह°, द्वाद-
 शाहुल°, द्वादशाहुलि°, धर्मिप्र-
 हक°, श्येय°, नवन°, निर्°, परि°,
 प्र°, प्रति°, १त्रह्नन्°, महाप्रस्थरा-
 त°, १मातृ°, लिङ्ग°, वि°, वेदान्त°,
 स्वातुभूत्येक°
 *मान-इ- ६स°
 मान-यष्टि-रेखा- तदन्तर्मध्यव-
 तिन्°
 +१माय निद्र°
 *माय- १विश्व°
 मित- ४अ°, नवमान°, निद्र°, परि°,
 प्र°, समू°, सुजीर्ण°
 मित-भोजन- अल्पमूत्रपुरीव°
 १मिता(त-श्रा)हार- अहिंसा°°
 मिमान- निद्र°
 मेय- ४अ°, अतु°, परि°, प्र°, विद्या-
 विद्यादि°
 मांस- अरिथ°, क्माल°°, मो°, १त्वच°
 १त्वच°, १मपु°, नल°, मेदस्°,
 ४रक्त°, रस°°, रवन्°, सर्व°, सुरा°
 माहृत्य- १महल- (परि.) द.
 माजिष्ठ- मजिष्ठा- (परि.) द.
 मात-माति- √मा (माने) परि. द.
 *मातुलुङ्ग- आम्°°
 २मातृ- ४अ°, जगत्°, १देव°°, ५न°,
 पितृ°, माधूकर°, १विश्व°, २वेद°,
 सकलभुवन°, सप्तम्°, स्कन्द°
 *मातृ-गण- १४२°
 *मातृ-पितृ-जाया(या-श्र)परय-
 धर्ग- तद्°
 *मातृ-रजन- शुद्धि°°
 ३मातृ-> २मातृ-क, का- अन्तर्°,
 एतत्पुटित°, पद्याशास्त्र°, मन्त्र°
 *मातृका-मन्त्र-वर्ण-पद्याशास्त्र°
 *मातृ(शु-श्र)ष्टक- ६स°

१-२मात्रक- √मा(माने) परि. द.
 माथिन्- √मथ् (परि.) द.
 माद- मादिन्- माघत्- √मद्
 (परि.) द.
 माधुर्य- १मपु- (परि.) द.
 √मान् > मीमांस > मीमांसक-
 जैन°°
 १मीमांस > सा- व्रत°
 २मीमांसा- १पुराण°°
 मीमांस्य- ४अ°
 मानन-मानयत्-, मानित-, १-२मा-
 निन्- √मन् (परि.) द.
 २माय°
 माय- √मा (माने) परि. द.
 माया- ४अ°, अमि°, १अज्ञान°, अ-
 नादि°, अन्त्य°, आत्मन्°, तद्°,
 तमस्°, १तार°, त्रिशक्ति°, धर्म°°,
 २निज°, ३भू°, भूत°, महत्°, मोह°
 यद्°, २योग°, १रमा°, राजस°,
 रास°, १वरय°, १विश्व°, शक्ति°°
 शब्द°, श्री°, ६स°, सकल°, सा-
 च्चात्°, सारिक°, स्व°, स्वप्न°,
 स्वाधीन°, १हर°
 *माया(या-श्रा)दि-विद्या- सर्व°
 *माया-मन्मथ- श्री°°
 माया-मय-> *मायामय-बुद्धी-
 (दि-इ)निद्रय- खलरूप...हा°
 १माया-विद्या-
 २माया(या-श्र)विद्या- परजीवोपाधि°
 मलयुक्- √मी (*वधा) परि. द.
 मारि- √मृ (परि.) द.
 + √मान् > मि परि°, वि°
 *मातिंतव्य- परि°
 मागंशीर्ष- √मृग् द.
 १-२माजैन- माजैयत्- √मृज्
 (परि.) द.
 १माजैर- दुष्टकीट°°
 *मातृपण्ड- आदित्य°°

माताण्ड- धातृ°°
 मा(ल >)ला- २अक्ष°, अनङ्ग°, आन-
 न्द°, कण्ठ°, १कमल°, जप°,
 ज्वाला°, तरङ्ग°, तुलसीकाष्ठा-
 क्वित°, तुलसीनलिनाक्ष°, त्रि°,
 दुष्टप्रहज्वाला°, पद्मचतु...त°,
 पुष्प°, प्रणव°, विस्वदल°, २भग°,
 महामुरड°, महाराह्ण°, २मातृका°
 मातृकाय...र°, रत्न°, वन°, वल-
 नीव...ज°, विशुव°, १शिव°,
 सप्तम्°, स्वर्ण°
 माला-मन्त्र- गहड°, वृसिंह°, मूल-
 मन्त्र°, रामहृष्य°, सुदर्शन°
 *मालिक > लिका- २अक्ष°, २य-
 ट°, पूर्व°
 *मालिका-वर्ण- हंतालम्°
 मालिन् > नी- ३शिवुर°
 १माह्य- आनन्दतुलसी°, गन्ध°,
 पुष्प°
 *माह्या(त्य-श्र)मुलेपन- २शु-
 ङ्क°
 *माह्या(त्य-श्र)म्बर- दिव्य°
 *माह्या(त्य-श्र)म्बारा(र-श्र)-
 लंकारा(र-श्रा)घ- २सुगन्ध°
 मालिन्य- मल- (परि.) द.
 + १२माह्य-
 माप- तिल°
 मास- सान्द्र त्रिमा २, ११२. [०स-
 अर्ध° वतुर्°, तद्°, त्रि°, निचतु-
 स्त्रि...तुर्°, दिन°°, द्वादशवयो-
 दशम्°, द्वादशान्°, दि°, पस°,
 पूर्ण°, १वार°°, पप°
 मासिक-> *मासिक-उत्तर- अ-
 तिमयैकरज्वर°°
 १मिश्र- अक्षय°°
 २मिश्र-> मैत्राय(ल >)णी- केन°°
 मित्रयु-> मैत्रेय > मी- कलाति-
 रत्न°, केन°°

a) कर्तार हृत् । b) व्यु. १ = वचनविरोध - । c) ग. १ (११५८) यनि. संख्यानिर्देशः द. । d) ग. १ (११५९) यनि. संख्यानिर्देशः द. । e) ग. १ (११६०) यनि. संख्यानिर्देशः द. । f) ग. १ (१४५८) । g) ब्रह्म. द. = ब्रह्मं, उपनि. दिशो १ - ।

√मिष्(कथा.)> १मिथुन- अग्नि-
 भव०, द्युरशारिका०
 २मिथुन- आलम्ब०
 मेथुन- अति०, १पुष्प०
 +मेथुना(न-अ)धिकरण-
 मन्त्रत्रयाधिकरण०
 मिष्या संराय०
 √मिद्(कथा.)> ३मिप्र-> ४मिप्र-
 ४अ०, अरि०, कलत्र०, दुर्०,
 १पुत्र०, १विष्य०धा०, ४पु०,
 १प्राद०, ४, मुद्द०
 २मैत्र-> मैत्री- विद्या०
 मेदस- १त्वच्०, मांथ०, रस०,
 विष्०
 √मिन् सप्
 +मिन्न- १मारण०
 मिलित- युञ्जुम०, मध्यमानरा०
 +मेलक- सप्
 मेलन- अन्तस्तत्त्वं, मन्त्रविष्यु...
 विन्दु०, व्योमज्वलनेन्द्रियाकृता-
 विन्दु०, व्योमज्वलनेन्द्रियाद्यत्त्वं,
 व्योमप...न्दु०, सप्
 √मिथ् व्या०
 मिथ- ह्युद०, तमस्०, १धीज०,
 २रु०, व्या०
 मिथित- कर्मन्०, शुड०, १विष०,
 शक्ति०
 √मिष्(कथा.) उद्, नि०
 +मिष- नि०
 मिषत्- उद्, नि०
 मिष्ट- कृद्
 +मिष्ट-स- राधास्तादित०
 +मिष्टा(ष्ट-अ)भृतमय- पुष्प०
 +३मेष- उद्, नि०
 +मेषण- नि०
 √मिद्> मिहि(क>)क- संसारमोह०
 मेष- -घः छां ३, ११, २. [य-
 धर्म०]
 √मी (कथा.) उद्, प्र०

+मायुक्- प्र०
 मीन- गन्जन०, चित्त०, मद्द०
 +मील् उद्, नि०, गम्
 +मीलन- उद्, नि०
 +मीलित- उद्, नि०, गम्
 +मील्य उद्
 मुकुट- षट्क०, किरीट०, ऋडा०
 +मुकुट-कोटि- विदरा०
 मुकुन्द- हरि०
 +मुकुन्द-मिथि- श्री०
 मुकुल-> मुकुलित- रतिभर...म्य०
 २मुक्त-> मुक्ता- वनक०, वनक०,
 मणि०, रपटिक०
 मौक्तिक- अलंकार०, २प्रवाल०
 ६रा०
 +मुक्ता-फल- मणिमय०, शुद्ध०,
 क्षीरपावलीपटित०
 मुक्ता-रुता- व्यक्त०, २मुगन्ध०
 +मुक्ता(क-आ)थ(ति)> स्त्री- भूत्
 बर्होयोतित०
 +मुक्तावस्त्री(-क)- फोमल०
 +३मुक्ता...- २स्वरितक०
 मुख- ४अ०, अधस्, अन्तर्, अभि०,
 अवाच०, अव्यक्त०, अष्टन्, आ-
 चार्य०, आवाहन०, उत्तरा०, उद्,
 उदच्, उरम्, उरम्, उल्का०, ऊर्ध्व०,
 एकोनविराति०, कतिभेद०, १की-
 र्ति०, युक्, गो०, चतुर्, चतुर्दशन्
 चन्द्र०, २चरण०, चारु०, चैतस्,
 जलयन्त्र० जिह्वा०, तद्, साम्बूल-
 पुरित०, तिर्यग्ूर्ध्वमधस्, प्रयोद-
 शन्, प्रयोदशसोम०, नि०, त्वद्,
 २दक्षिणा०, ६दक्षिणा०, दक्षि-
 णाक्षि०, दन्ती०, द्वादशन्,
 नगरराज०, नामा०, नारायण०,
 पञ्च०, पराच्, पथात्, पथिम०,
 पितामह०, प्र०, बगला०, ३पल०,
 बहिष्, ब्रह्मदार०, १ब्रह्मन्, ब्रह्म-
 नाडी०, ब्रह्मरुद्र०, भिक्षापान०,

मृग०, १मृग्यु०, १यम०, १यम०,
 नि०, विधि०, विरहमृग०, विष्णु०,
 १म्याप्र०, रायु०, सांशर०, १धन-
 रा०, पर्, महाराजिनी०, मह-
 रादेवगा०, महारा०, महानर०,
 पञ्चनारा०, महाननोद०, महन्,
 राबन्तु०, गम्, महाननवेरित०,
 सार्धगम्, महाराजिधि०, गाढार-
 विधि०, गु०, २रिधत्, रिगत०,
 स्य०, खेदविषमवगा०
 +मुष्प चुनि- अमानन्द...म्य०
 +मुष्प-शुल्क- शिरःशुल्क०
 +मुष्पा(म-अ)मुष्प-ज- समयमान०
 +मुष्प (श-अ)मो-ज- चतुर्मुष्प,
 तातवार्त०...मित०
 मुष्पय- अपान०, इन्द्र०, तद्, दैत्य०,
 दैव०, ३नील०, प्राण०, शोष०, वर-
 दान०, पण्डित०...धि०, विप्र०,
 धर्मे०, सुरेन्द्र०
 +मुष्पय-प्राण- जीय०
 √मुच्य> मोक्ष, सुमुख, मोक्ष, > शि
 अति०, अव०, निर्, परि०, प्र०,
 प्रति०, वि०, विनिर्, विप्र०, संप्र०
 १मुक्- ४अ०, भेदेह०, अद्वितीय०,
 अद्वैत०, अरिपङ्क०, कलाकल-
 न०, क्रम०, २चैत्य०, जीवत्, १ज्ञा-
 न०, २निज०, १नित्य०, १नित्य०,
 निर्, परापवाद०, परि०, १पान०,
 पारा०, प्र०, प्रपञ्च०, बद्ध०, १चण०,
 १युद्ध०, भवभय०, योनि०, साराण०,
 २वासना०, वि०, १विदेह०, विनिर्,
 शुद्ध०, सदा०, सद्यस्
 +मुक् के(श>)नी- अरिष्टका-
 रिणी०
 मुक्ति- अति०, अवेह०, कैवल्य०,
 क्रम०, जीवत्, तद्, देह०, १क-
 ल०, १चण०, २भव०, मुक्ति०, वि०,
 वैदेही०, शिवसायुज्य०, सायुज्य०,
 सालोक्य०, सालोक्यसाहाय्य०

a) व. JC.; वैतु. सं. रामा., पक्षे गोपा. 'समेघः' इति। b) व्यु ? =आसनविशेष-।

+१मुक्ति-(क)- वैदेही°
 +२मुक्ति-(क)>का^१ ईशावा-
 स्य° कलिजाबा^२ च°
 +मुक्ति-प्रद- सद्यस्°
 मुक्ति-भार्य- स्वान्तविजृ^३रित°
 मुक्त्य(क्ति-अर्थ)- संसार°
 +मुच्य अति°, प्र°, वि°, संप्र°
 +मुच्यमान- वि°
 सुमुक्षु- जीवत्°, सर्व°
 +मोक- निर्°, वि°
 १मोक्ष- -क्षम् अशि ७०° [°क्ष-
 अति°, आ°, कएट्क°, १केवल°,
 जरामरण°, १देव°, देहित्व°,
 धर्म°, निर्°, निर्वाण°, निरशङ्का-
 नन्द°, परम°, १बन्ध°, भूतप्रकृति°,
 १भोग°, वि°, विनिर्°, विप्र°,
 विमुक्त° शुद्ध°, समाधि°, स्वर्ग°]
 मोक्ष-साधन- अखिल°
 +मोक्ष-साधन- अन्त- स-
 मस्त°
 +मोक्ष-विधि-बन्ध- संसार°
 +मोक्ष(व-ए)क-साधन- सा-
 चार°
 +मोक्षण- १बन्ध°, वि°
 मोचक- १बन्ध°, वि°, संसार°, सर्व-
 संसार°
 १मोचन- विण्ण^४दि°, रशुक्°,
 संसार°
 +२मोचन- २भव°, भवबन्ध°
 √मुण्ड(कपा.)>१मुण्ड- महत्°,
 मुण्डित°, लघु°, १वर°
 २मुण्ड- गङ्, ६६६७ द.
 +३मुण्ड(क)- ईश°
 +मुण्ड-क^५- २प्रश्न°
 +४मुण्ड(क)- चण्ड°, २मधु°
 √मुद्->मोदि अजु°, आ°, प्र°, प्रति°
 मुद्- प्र°

१मुद्-
 २मुद्(>)दा- प्र°
 मुदि->मुदि-ता- मुदिता°, मै-
 त्री°
 मुदित- उदात्त°
 मोद- अज°, आ°, प्र°, प्रतिबन्धित-
 शा^६दन°
 +मोद-स्व- जडत्व°
 +मोद-दायिन्- सदा°
 मोदक-, +मोदयित्वा सजु°
 +मुद्- गोधूम°
 १मुद्गल->२मुद्गल- ऐतरेय°
 १मुद्(द)>द्रा- आधारनवक°, आनन°,
 कण्ठ°, १ज्ञान°, तद्°, नभत्°,
 पबत्°, पृथ्वीमण्डल°, २बन्ध°,
 महत्°, महोन्मादिनी°, मौन°, २यो-
 ग°, योगि°, २लोपा°, शांभवी°
 +मुद्(क)>द्रिका- हस्ताङ्गुलि°
 २मुद्(द)>द्रा- उन्मादिनी°, खेचरी°, त्रि-
 खण्डा°, द्वाषणी°, १बीज°, महा-
 बुद्ध°, सर्ववशंकरिणी°, सर्ववशंकर-
 णी°, सर्वविद्राविणी°, सर्वसंज्ञो-
 मिणी°, सर्वाकर्षिणी°
 मुनि- भक्षोभ्य°, क्रोध°, १देव°, म-
 हत्°, २वर°, वसिष्ठवामदेवादि°,
 विभाण्डक°, सनकादि°
 मौन- ४अ°
 +मौन-फल- सर्व°
 मौनिन्- महत्°
 +मुनि-शब्द-वाच्य- मुग्धतर°
 +मुरली^७- हेमन्°
 +मुप परि°, प्र°, संप्र°
 +मुपित- मायापाद^८कार°, मोह-
 राहु°
 +मोप- संप्र°
 +मोपिन्- परि°
 १मुष्टि- भस्मन्°

+१मुष्टि-(क)- स्यामण्डल°
 +मुष्टि-पार्श्व-शूल^९- दृष्टिशूल°
 +मुष्टि-शूल^{१०}- दृष्टिशूल°
 +मुष्टि-शूल^{११}- दृष्टिशूल°
 २मुष्टि->२मुष्टि-क^{१२}-
 मुसल- १वज्र°, सज°, सुदर्शन°
 √मुद्->मोहि परि°, प्र°, वि°, सम्°
 मुग्ध- ४अ°
 +मुग्धा(ग्ध-अ)मुग्ध- अनान-
 न्दसमानन्द°
 मुहामान- परि°
 मुह- ४अ°, अति°, दिग्°, प्र°, वि°,
 सम्°
 मोह- ४अ°, अविद्या°, अशना-
 या°, १काम°, १लुब्ध°, गत°,
 जरा°, र्पण°, द्वन्द्व°, द्विनिमि-
 त्तक°, निन्दा°, परि°, पृथिवी°,
 प्रमाद°, १भव°, १भाव°, मद्°,
 मद्°, १मनस्°, महत्°, १मान°,
 माया°, लोभ°, लोभ° वि°, विता°,
 विश्वस्त°, शोक°, संसार°, संकल्प-
 न°, सम्°, सुख°, सुखदुःखादि°
 मोह-क(र)री- अति°
 मोहक- जगत्°
 +१मोहन- १मारण°, विद्वेषिन्°
 २मोहन- अति°, आनन्दरसि°
 शि°, जगत्°, त्रैलोक्य°, दृष्टि°,
 महत्°, श्रीराधारसिक°, सम्°,
 सर्वजगत्°
 +मोहन-गृह- जघनस्थलवासिन्°
 +मोहन-रूप- अति°
 मोहयत्- सम्°
 मोहित- ४अ°, १काम°, देव°, परि°,
 माया°, लोभ°, वि°, सम्°
 १मोहि(न)>मो- एक°, चन्द्रकला°,
 त्रैलोक्य°, वि°, विश्व°, संकल-
 जगत्°, सम्°

a) =तदाख्योपनिषद्-विशेष-। b) अष्ट्याः शै. अया.। c) गङ् (६६६७) यनि. संख्यानिर्देशः ६.।
 d) कर्तरी कृत्। e) धा. अर्थः ? =तदाख्योपनिषद्-विशेष-। f) धा. अर्थः ? =राजगणेश-विशेष-। g) म्यु. ?। h) गङ्.
 (६६६९) यनि. संख्यानिर्देशः ६.। i) भाष.। j) गङ्. (६६७०) यनि. संख्यानिर्देशः ६.।

२मोहिनी- स्तम्भिनी°
 मूक-४अ°, निराशाया...रित°, यधि-
 र°°, १वाल°
 मूय-अल्प°, कक°°, गो°, मल°, मांम°,
 ४रक°, विरु°, खव°, मूकर°, स्वैद°
 मूय-क- कपिला°
 मूय-पुरीष- अल्प°

मूर्ख- म्लेच्छ°
 √मूर्(मूर्ह्)मूर्ध्)छी- २जा-
 प्रत्°°
 मूर्छित- तद्वाण°
 मूर्त्- ४अ°

मूर्ति- ४अ°, अकार°, अनन्त°,
 अनिष्ट°, अभ्यक्त°, अष्टन°,
 आकाश°, आत्मन्°, आदिज्ञान्त°
 आनन्द°, उकार°, मृच्°, करवर-
 णादि°, २कृष्ण°, गुरु°, चतुर्°,
 १ज्ञान°, तद्°, त्रि°, ६दक्षिण°,
 १निज°, नित्यानन्द°, निर्मलनि-
 र्वाण°, पञ्चन°, परम°, प्रगुप्त°,
 बोधानन्दक°, १मन्त्र°, मकार°,
 १राम°, वरद°, वारुण°, १विश्व°,
 विश्वादि°, वैराग्य°, शशपृष्टि-
 म्य...र°, शिववि...धर्म°, शिवा-
 नन्दनन्दि...न्द°, ६स°, १सचि-
 दानन्द°, संज्ञा°, सर्वदया°
 मूर्ति-मत्- ४अ°

मूर्ध्वन्- एक°, नाभि°, पर्वत°, पाद°,
 १मन्त्र°, सर्व°

√मूल> १मूल- ४अ°, अहुष्ट°, अहु-
 ष्टल°, अनादि°, अष्टदल°, आ-
 त्मविद्यातपस्°, ऊर्ध्व°, कण्ठ°,
 कनिष्ठिका°, कल्पतरु°, १कुरा°,
 कैलास°, ज्ञेया°, चित°, जिह्वा°,
 तद्°, तदन्त°, तरु°, तालु°, तुल-
 सी°, वृष°, त्वद्°, दक्षिणभुज°,
 दन्त°, निर्द°, पेशवुद्धयादि°, पत्र°,
 पयस्°, १पायु°, पीठ°, १फल°,

१फल°, बाहु°, विन्दु°, बिल्व°,
 महाभाण्टीषट्, यर्°, २रसाना°,
 यदाच°, लिङ्ग°, यदाधार्य°, याम-
 पाद्°, यामबाहु°, यामाण्शि°,
 यामोर°, यृच°, रात°, शम्भ°,
 २शाक°, दान्त°, शिरायाशोप-
 रीत°, शूल°, धीफल°, ६स°,
 १सार°, सादाचार्य°, सर्वकारण°,
 सुविस्त°, स्थूल°, म्य°
 *मूल-कारण- परमसूक्ष्म°
 मूल-प्रकृति- आधारशक्ति°
 मूल-मन्त्र- शपोर°
 *मूल-शूल- शिरःशूल°°
 *मूला(ल-व्या)दिक- तुलसीपा-
 ...शुद्ध°
 मूला(ल-श्र)विद्या- महन्°, विवि-
 धविधिप्रदानन्त°, सर्व°, सविलास°
 *मूल्य- पत्र°°

२मूल- गण. ५६७२ दः
 ३मूल-> मूल-क- १कन्द°, १वाल°

√मूप(१धा.)+मूप- १ध्याप्र°
 मूपक- २डु°
 मूपिक- -काणाम् गद २४.[°क-
 ३वक°, १माज्जर°]

√मृ> मारि अव°, परि°
 मर- ४अ°, गरि°
 मरण- अशानाया°, आ°, १का-
 म°, गर्भ°, जन्मन्°, जरा°,
 २जाप्रत्°°
 *मरणा(ण-श्र)न्तिक- आ°
 *मरुत्- ४अ°
 *मरु- जरा°
 मारि- १सार°°
 १मारण- अरि°, २मह°, शत्रु°
 *मारि>री- महत्°
 मृत- ४अ°

१मृत्यु- मृत्यु खेदे, ८९°; ६, १५९°
 [°स्यु- ४अ°, अति°, अतिमृत्यु°,

अप°, १काम°°, २काल°, जन्मन्°
 जरा°, पुनर्°, महन्°, १मृत्यु°,
 यद्वानलतदुर्गा°, वि°, सर्व°]
 *मृत्यु-क- दिरा°°
 मृत्यु-मृत्यु- ४अ°

√मृग्(१धा.) वि°
 मर्ग-> मार्ग- अज्ञानिहृत°, अन्-
 न्य°, भन्य°, अपिन्°, अवधूत°,
 आचार्यशास्त्र°, उक्त°, एक°, एतद्°
 फर्मन्°, गुफराश्रोक्त°, गुरुशुद्धि°,
 गुरुप्रदेश°, १ज्ञान°, तत्त्व°, तद्°,
 तन्मात्रप्राप्त°, तारकयोग°, त्रि°,
 दशमदार°, धर्म°, धूल°, नभस्°,
 नादि°, नाष्टी°, माना°, निजाभ्यास°
 निर्वाण°, निश्रुति°, निष्कर्मन्°, पर-
 महंस°, पथिम°, पथिमदार°, प्रष्ट-
 ि°, प्राण°, प्रेमन्°, बहु°, बाल°,
 १मन्त्र°, २भक्ति°, भजन°, महत्°
 मुक्ति°, १भोक्त°, २योग°, रत्त°,
 रसिकानन्द°, रहस्य°, राजन्°,
 वन°, २वामदक्षिण°, वायु°, विधि-
 नियेध°, विदुक्त°, रवेद°, वेदलौ-
 किक°, २शुक°, धृतिश्रेयलुक्त°,
 धृत्यदुष्टान°, संसारनिर्घृति°,
 १सत्°, १सत्य°, संबन्ध°, सर्व°,
 सिद्धि°, सुपुत्रा°, सूक्ष्म°, सूक्ष्म-
 तर्° ज्ञेह°, स्वद्योक्त°, स्वरूपाउ-
 त्त° च्यान°
 *मार्ग-श्रेय- इहादि°
 *मार्ग-भेद- त्रि°

मृग- ७चित्र°, दुष्ट°, द्विज°, नर°,
 नर°°, १पशु°, सर्प°°
 मृग-मृग्या- दिचन्द्र°°
 *मृग-मद- अगुरु°, केसर°,
 तैल°, त्वज्°°
 *मृगमदा(द-श्र)गुरु- १वि-
 त- अति°
 मृग्य- वि°

a) गण. (५६७२) 'मूपिका-' इत्यत्र यनि. शोधः द्र. 1 b) = १काम- । c) मा ३१, १८ (तु. डि.

√मुञ्, >माञ्जि अनु०, अनुवि०, नि०,
परि०, प्र०, वि०, सम्प०
१माञ्जिन- ४अ०, हरय०, छीव०,
सम्प०
+२माञ्जि(न०)>नी^१- सम्प०
+माञ्जयत्- परि०
+मुञ्ज- ४अ०
+मुञ्जत्- परि०
+मुञ्ज्य अनुवि०, प्र०, वि०, सम्प०
१मुष्ट- ४अ०, सम्प०
+मुष्ट(ष्ट-अ)शन- अल्प०

√मुष्ट>मुष्ट-पाशुपतास्त्र...खाल०
√मुष्ट्, >मुष्टत्- प्र०
√मुष्ट् अभि०, उप०, वि०
+मर्द्ध- उप०, वि०
+मर्द्धन- गात्र०
+२मर्द्धन- अनात्मासुर०, अरि०,
राक्षस०, वि०
+मर्द्धिन्, नी- १अहि०, ३महिष०
मुष्ट- तास्त्र०, पाषाण०, १मूल०,
१श्वेत०
मुष्ट्-ति(क)>का- गोपीचन्दन०,
बुलसीमूल०, १श्वेत०
+मुष्ट्-तोय- ज्ञानवैराग्य०
+मुष्ट्-स्ना- १श्वेत०

√मुष्ट्, >+मुष्ट- वि०
+√मुष्ट्, >मार्ति अभि०, अव०, परा०,
परि०, वि०, सम्प०
+मर्श- परा०, वि०, सम्प०
+मर्शिन्- सम्प०
+मर्श्य- +मुष्टमान- अभि०
+मुष्टय अभि०, अव०, वि०
+२मुष्ट- परा०, परि०, वि०

+√मुष्ट्>मर्षण- अष०
मुष्ट् ४अ०
+√म, >मय- विने०
मेख(त)>ला- अनात्र०, कटि०
मेद्- आसन०, मुद्, १त्वच्०, पाद०,

पृष्ठवंश०
मेध- अध०, पित्रु०, प्रिय०
मेध्व- ४अ०
+मेधस्- अङ्कशठ०, अल्प०, दुर्, सु०
१मेधा- अति०, प्रज्ञा०, भद्रा०
मेरु- महत्, महेन्द्र०, सहस्रशिखर०,
सु०

मेलक- √मिल् (परि.) द्र.
१-२मेय- गप्, पृ६७७ द्र.
३मेय-मेयण- √मिष् (परि.) द्र.
मोक-मोक्षण- √मुच् (परि.) द्र.
१मोघ- ४अ०
१-२मोचन- √मुच् (परि.) द्र.
मोदयित्वा √मुद् (परि.) द्र.
मोय-मोपिद्- √मुष् (परि.) द्र.
१-२मोहन- √मुह् (परि.) द्र.

मौलि- इन्दुखण्डान्त०, ज्योतिम्,
धृतपालेन्दु०, विन्दु०, रत्नीषाव-
द्, शेषफणाच्छादित०, संमोह०,
१सुरलोक०

+मौली(लि-इ)म्हु- अज्ञोभ्य०
+√ञ्जा आ०, समा०
+म्नाय- आ०
+√मुच्, >मुष्, मोचत्- नि०
+√म्रेद् आ०, उपनि०, नि०
+म्रेडन- आ०

√मुच, >+म्लोचत्- नि०
म्लेच्छ- १पशु०
√म्लै अभि०, वि०
+म्लाल- अभि०
म्लान- ४अ०

य

१य>१य-कार->+यकारा(र-अ)न्त-
नकारादि०
१यत्->२यक्ष- गन्धर्व०, गन्धर्व०,
१देव०, नाद०, पिराण०, भूत०,

यानि०, ६स०, सिद्ध०
+यक्ष-गन्धर्व-रक्षाः-किंनर-मातुप-
जठरान्तःस्थित०

+यदम- ४अ०
√यच्छ्, यस्(यमने), >यमि, यामि
अन्तद्, उद्, नि०, प्र०, विनि०,
संनि०, सम्प०

१यत्- उद्, नि०, प्र०, १वाच्,
विनि०, सम्प०
यन्त्- चित्ताहंकार०, नि०, सु०
यन्त्र- एतद्, २घटी०, २जल०, २त्रि

कोण०, दुष्टग्रह०, नारायण०, १पर०
१बीज०, मन्त्र०, महत्, महानारा-
यण०, राव०, छुट्शनादि०, सूत्र०
+यन्त्र-कवाट- आरक्ष्मन्...त०
+यन्त्र-सन्त्रा(न्त्र-आ)दि-

१वरय०
+यन्त्र-निर्माण- जलशु...न०
+यन्त्र-मन्त्रा(न्त्र-आ)वरण-
पूजा- नारायण०
+√यन्त्रि नि०
+यन्त्रित- नि०, सु०

१यम- अरुण०, इन्द्र०, निशा-
कर०, शक्र०
+यमा(म-अ)न्तक- प्रपान्तक०
२यम- उद्, जप०, नि०, सम्प०,
समुद्

यमा(म-आ)या(दि-अ)ष्टा(ष्ट-अ)-
ङ्ग-योग- ज्ञानसहित०

३यम- गप्, पृ६८० द्र.
+४यम- वाचम्
+यमत्, +१यमन- सम्प०
+यमित- नि०
+१यम्य उद्, नि०, विनि०, वंनि०,
सम्प०

+३याम- अन्त०
+यामन- नि०
+यामिन्- अन्त०, अशेषभूतान्त०

a) गप्, (पृ६७५) यनि. संख्यानिर्देशः द्र. । b) करणे कृत् । c) गप् (३६७६) यनि. संख्यानिर्देशः द्र. ।
d) कर्नरि कृत् । e) वैप १ यद. । f) गप्, (पृ६७९) यनि. संख्यानिर्देशः द्र. ।

यच्छ्, यम्(दाने) उप०, प्र०, संप्र०
 + धयाम्- उप०
 यज्, > याजि अनु०, अय०, आ०, प्र०, सम्प्र०
 + हृन्- श्यत्
 हृ(ज्य >) ज्वा- क्रिया०, भूत्
 + हृश्वान्- आत्मन्
 २ हृष्ट- सु०
 हृष्टादि(था)दि-कारिन्- अन्
 हृष्टि- पुत्रकाम०, प्राजापत्य०, ब्राह्म०, वैश्वानर०
 + हृष्टि(क)- दर्शपूर्णमास०
 + यज्- १ देव०
 यजन- भव०, १ देव०, प्रत्यच्०, झान०
 यजमान- -नाय गर्भं २०. [० न- ४ अ०]
 यजुस्- श्यन्०, सामन्०
 यजुर-चेद- १ कृष्ण०, २ शुक्र०
 यज्ञ- ४ अ०, अग्निहोमादि०, अधि०, आतिथ्य०, आत्मन्०, जप०, १ ज्ञान०, तपस्०, तीर्थ०, ३ देव०, ध्यान०, ५ न०, नामन्०, द्रव्य०, पथन्०, १ ब्रह्मन्०, १ मनम्, महत्०, २ योग०, मत०, शारीर०, १ शिव०, २ वेद०, १ यत्य०, सर्व०, २ सह०, खटि०, स्वाध्यायज्ञान०
 यज्ञ-कर्मन्- सर्व०
 + यज्ञ-दान- अनेक०
 यज्ञ-वल्क- > १ याज्ञवल्क्य- गौतम०, २ जनक०
 + २ यज्ञवल्क्य- ईशवा- रय०
 + यज्ञ-शील- ४ अ०
 यज्ञा-यज्ञा > यज्ञायज्ञीय- ४ भद्र०

यज्ञो(ज्ञ-उ)पवीत- ४ अ०, एक०, १ ज्ञान०, १ त्रिदश०, शिवा०, २ शुक्र०
 यज्ञोपवीतिन्- ४ अ०
 यज्यन्- ४ अ०, गु०
 याग- -गम् पहं १५० : ६ [० ग- अन्तर्, यष्ट०, द्वादशवर्षसत्र०, धर्म०, पितृ०, १ मनत्, सप्त०, समस्त०]
 + याग-मत-तपो-दाना(न-आ)- दि- नित्यनेमित्तिक०
 याज- अनु०, प्र०, सम्प्र०
 याजक- + याजन- अयाज्य०
 + याजिन्- अश्वमेध०, आत्मन्, मद्, १ सत्, सर्वयज्ञ०, १ सोम०
 + याजुक- इष्टि०
 याज्य- ४ अ०
 यत्(यतने) अन्वा०, आ०, प्र०, सम्प्र०
 + यतन- आ०
 यत्त- अन्वा०, आ०, सम्प्र०
 यत्न- ४ अ०, अनु०, आत्मन्०, पौर- व०, प्र०, सर्व०
 यत्(निकारो) > याति > यात(न) > - ना- घोरदि०
 १ यत- यच्छ्, यम्(यमने) परि. द्र.
 २ यत- यम्(द्वैधे) द्र.
 १ यति- -तिः पहं ४. [० ति- ४ अ०, १ चोष्टि०, नीच०, ब्रह्मचारिन्०, महत्, १ सत्.]
 + यति वृत्ति-हन्- -हा पहं १५० : १९.
 २ यति- गप्, ४६८४ द्र.
 ३ यति- यम्(द्वैधे) द्र.
 + यत्खल- -कः व ४४५ : २१.
 यद् > धय- यः, यस्मान् मज्, ४५५.
 यत्र त्रिदि १५.

यथा गृ ६, ४, २३५.
 + यथा(पा-आ)यम्- > याथा- रय- आत्मन्
 १ यथा-योग्य- > + यथायो- १ व-काल- गृहार०
 यथा(या-अ)ध- २ दित०
 यथा-यत् ४ अ०
 या- > या-यत्- > + यायात्-सद्- गन्ध-गुटिका- -का शि ४, ३४.
 यन्त्रित- यच्छ्, यम्(यमने) परि. द्र.
 १ यम्
 + २ यम् छां ८, ३, ५.
 यम्(द्वैधे) > + २ यत्- + ३ यति- + २ यमन- + २ यम्य, + ५ याम- आ०
 १-धयम- यमत्, १ यमन- यमित- १ यम्य यच्छ्, यम्(यमने) परि. द्र.
 + ययाति!- सुमुप्र०
 १ यय- मीहि०, ६ स०
 २ यय- यु(मिथये) परि. द्र.
 ययस्- ४ अ०, आयुस्, १ ब्रह्मन्, महत्, विद्या०
 ययस्-विन्- > १ ययस्विनी- > २ ययस्विनी- पूया०
 ययो(द) > दा- १ नन्द०, श्री०
 यष्टि- कटि०, कन्दुक०, कन्दुकशैलि०, महत्, २ मान०
 यस्(बधा) > यासि आ०, निर्, प्र०
 + यस्त- आ०
 + यास- आ०, निर्, प्र०
 + यास्य- ४ अ०
 यथा, > यापि, यियास, याति नोउ १५. [अनु०, अप०, अभि०, आ०, उद्, उप०, उवा०, निर्, प्र०, प्रत्या, विनिर्, सम्प्र, समा०]

a) अश्व्याः सा. अथा । b) गप्. (४६८२) यति. संख्यानिर्देशः द्र. । c) = तवाख्योपनिषद्-विशेष- । d) निसा. अथा. । e) अश्व्याः सं. अथा. । f) व्यु.ि = राजसविशेष- । g) मा ८, ३६ । h) आन. अथा. । i) ऋ ५, ७८, ७ । j) गप्. (४६८८) यति. संख्यानिर्देशः द्र. । k) 'सतीयम्' इत्यस्यान्तिमोऽवयवः । l) व्यु.ि = उपविशेष- । m) गप्. (४६८९) यति. संख्यानिर्देशः द्र. । n) तु. वैप१, ३९६ g।

-यात्- आ°, प्र°
 यात- अघत्°, अनु°, आ°, उप°,
 प्र°, समा°, स्वर°
 यात-यान- ४अ°
 याता(त-आ)यात्- समस्त°
 *यान्- उप°
 या(त्र)>त्रा- प्रामे°, तीर्थ°, दूर°,
 १देव°, प्राण°, रघ°, शरीर°
 *यान- दिव्य°, महत्°, विमान°,
 सम°
 +यान- अग्र°, उडि°, १देव°,
 पित्रु°, प्र°
 +यापन- निरु°
 २याम- अष्टन्°, चतुर्थ°, तृतीय°,
 द्वितीय°, प्रथम°, यात°
 +यापिन्- ५मरीचि°
 +यास्पत्- लद°
 +यियासत्- प्र°
 +यियासु- परलोक°
 ये आ°
 +याक्->याक्(न)>नी^१- भूत°
 √याच्>+याचक- १पुर°
 *याचन्->याचनक- १नित्य°
 याचमानं- याचित- ४अ°
 याजन- याजिन्- याजुक- १-२या-
 ज्वलक्य- √यज्(परि.) द्र.
 १-२याम- गप्, पृ६९० द्र.
 ३याम- √यच्छ्, यम्(यमने)परि. द्र.
 ४याम- √यच्छ्, यम्(दाने) द्र.
 ५याम- √यम्(द्वेषे) द्र.
 यामन- यामिन्- √यच्छ्, यम्
 (यमने) द्र.
 यास- यास्य- √यन्(वधा.) परि. द्र.
 √युमि(प्रणे) अघ°, प्र°, सम°
 २यव- अघ°
 *युम्- दीपस्वर°
 युत- ४अ°, अङ्ग°, अमिमण्डल°,
 अण्मिदि^१र्य°, अग्नि°, अना-
 द्दत्तयनि°, अनेकत्वाडु°, आत्म-

ध्यान°, आनन्द°, आरक्तमणि°
 कष्टचेष्टा°, किरीटाभरण°, गुणग-
 यना°, छे°, १चतुर्द्वार°, चातुर्य-
 गुण°, ज्वालावली°, दीर्घ°, द्वाद-
 शद्वार°, १द्वादशार°, नति°, पञ्च-
 वक्त्र°, पूर्णानन्द°, प्र°, १प्रेमान-
 न्द°, प्रेमोत्पादक°, फलपुष्प°,
 बहुक्षीर°, बहुशाल्म°, १चीज°,
 बीजनिद्रा°, भूमिभेदाभेद°, मणि-
 लता°, मयूरभिक^१स°, मातृका-
 दि°, यमनियम°, १रमणानन्द°,
 रूपप्रतिहृति°, रूपलावण्य°, वर्षा-
 श्रमाचार°, शक्तित्रय°, शिवाल-
 ज्ञार्चन°, शिवोमा°, शुक्वार°,
 समु°, १सर्वकाम°, सावेरास्मर°,
 सुखसंतति°, १सुगन्ध°, सूक्ष्म°,
 स्वप्ननिद्रा°, हेमस्तम्भ^१शान°
 *युति- प्र°
 युवन्->युवा वृजा ६, १८०. [०न्-
 साधु°]
 युवति- सर्व°
 यौवनं- आत्°
 *यौवना(न-अ)वन्- सुशु-
 क्र°
 १-५युग- युगवन्- नाड. द्र.
 √युज्(वधा.) अतु°, अनुविप्र°,
 अभि°, आ°, उद्°, उप°, नि°, प्र°
 प्रति°, प्रतिसम्°, वि°, विनि°,
 विप्र°, संनि°, सम°, समा°, मयुर°
 संप्र°
 युक्- अ°, अभिनायायण°, अन-
 न्याश्रय°, अनु°, अनुविप्र°, अ-
 नि°, अभ्यास°, अभ्यासयोग°,
 अरिष्ट°, अविशुद्धि^१र्य°, अ-
 हंकारकला°, आ°, आन्तेन्द्रिय-
 मनम्°, आघन्त°, आशीर्ष°,
 आस्तरण°, उद्°, ऐश्वर्य°, बाला-
 रमन्°, जैजलीव°, गुण°, गुण-
 त्रय°, घननैलनदी°, घनद्वाराक-

रण°, चन्द्रदर्शन°, जगन्मोहन-
 बीज°, जाप्रस्त्व^१धर्म°, ज्ञानवै-
 राग्य°, तद्°, तपनप्रार्थना°, तार-
 पन्नाण°, तुर्यैविश्रान्ति°, त्वगा-
 दि°, दशलक्षण°, दशसमा°,
 दिव्यास्व°, दीर्घ°, दुष्टास्व°,
 ध्यान°, नटनाट्य°, नानाभरण°,
 नारायणबीज°, नि°, १नित्य°,
 निर्युष्मध्यान°, नीली°, नृसिंहैका-
 क्षर°, पकफलरस°, पकफलधुगन्ध-
 रस°, पञ्चसंस्कार°, परस्परगोष्ठी°,
 १पाप°, २पुर°, पुष्पदानम्°, प्र°,
 प्रणव°, प्रणवसंपुटितम्^१र°,
 प्रणवसंपुटितश्रीबीज°, प्रतिमान°,
 प्राण°, प्राणैका^१नत्°, विन्दु°,
 बुद्धि°, ब्रह्मयज्ञक्रिया°, ब्रह्मयोग°,
 ब्रह्माङ्गलक्षण°, २भक्ति°, ३भाव-
 ना°, भोक्तृभोगार्थ°, १मनस्°,
 मन्दादिपवन°, मन्मथबीज°, महा-
 पातक°, २मानुका°, मायाबीज°,
 मुख°, युक्ति°, रत्नवस्त्रालंकार°,
 १रुद्र°, रेखात्रय°, रेचकगुरुक°,
 रेफविन्दु°, लाक्षा°, लोकसंग्रह°,
 वराहश्रीज°, वह्नि°, वि°, विविध-
 रस°, वैष्णवकला°, वण°, शक्ति°,
 शक्तिचालन°, शास्त्रादि°, शुक्-
 वार°, शुद्धवासर°, पद्मगुणयोग°,
 पद्मदीर्घ°, सतत°, सत्व°, संन्या-
 सयोग°, सम°, समा°, संप्र°, सु°,
 स्वाध्याय°, स्वयंभैवाक्षर°, हिंसा°
 युक्ति- द्रव्य°, १योग°, २योग°,
 विवेक°
 *यौक्ति- ४अ°
 १युग->युग-पद्(१दु)->१युग-
 पद्-प्रवृत्ति- ४अ°
 २युग- अनतात्र°, २रुद्र°, पाद°,
 प्र°, २रुद्रत°
 युगक- अग्नि°, उडि°,
 १युगघटन°, क्षीरान°, नागा°

1. . a) गप्, (पृ६९०) मनि. संवयानिर्देशः द्र. । b) भावे-रणे वा ष्ट् । c) यथाः शै. अत्रा. ।

नातापुत्र°, पाद°, दृप्त°
 ३युग- गपू, पृ६९१ द.
 ४युग- चतुर°, १पुत्र°, सहस्र°
 *युग-सहस्र- तावन्°
 *५युग- विद्या°
 युग- अंस°, २अर°, ३ग°, दोत्°,
 पयोधर°, परस्परवा...चा°, भू°,
 श्रीबीज°, हंग°
 *युग्मा(म-अ)भु-ज- ११६°°
 *युग्वन्- ६स°
 युजू- ४अ°, अध°, दोषोपैन्तु°, ६स°
 *युज्य प्र°
 *युज्यमान- प्र°, सम्°
 युञ्जान- उप°, प्र°
 योक्तव्य- नि°
 *योक्ष्यमाण- प्रतिस्मृ° सम्°
 १योग- ४अ°, १अज्ञान°, अणिमादि°
 अद्वैत°, अध्यात्म°, अनन्य°, अ-
 न्य°, अन्यतर°, अपान°, अभिव्य-
 क्ति°, अभ्यास°, अवियाशक्ति°,
 अस्पर्श°, आत्मन°, आधेशशक्ति°,
 आद्यति°, आसनाशन°, इन्द्रादि-
 पद°, उत्तरोत्तरयोनि°, उद्°, उदा-
 न°, उप°, लपाधि°, उमासोकर°, ऊ-
 र्व°, एकान्तप्यान°, एतद्°, कर्मन्°
 १कर्मनिमित्त°, क्लम°, क्रिया°, २काल-
 ल°, खनामि°, गति°, गुण°, २धट°
 चतुर्षु°, चिराभ्यास°, १जन°,
 जन्मान्त(कर्मन्°, १ज्ञान°, तद्°,
 ताम्बूल°, देश°, देह°, दैव°, दोष°,
 द्रव्यत्वाभाव°, नाना°, नि°, निज-
 शक्ति°, प्रधानि°, प्रधावयव°, पर-
 कायमनस्°, घृतिभाव°, शुचिवि°,
 प्र°, प्रधानशक्ति°, प्राचीन°, प्राण°
 प्रातिव्यापाम°, प्रेमन्°, १चन्व°,
 बुद्धि°, १त्रढाद्°, २भक्ति°, भाग°,
 १भाव°, १भूति°, मद्°, मन्त्र°,
 महत्°, मात्राद्वादशन्°, रथ°,
 रेत-सिचु°, वत्प्राशस्त्रेह°, वक्ति°

वि°, विनि°, विप्र°, विगुण्य°, वि-
 भूति°, वीराम्बाम्मात°, व्यासपा-
 न°, व्यान°, शक्ति°, शिवशक्ति°,
 धडाभक्तिप्यान°, धवणाकुष्ठ°,
 पद्गुण°, संपात°, संन्यास°,
 सम्°, समा°, १सामान°, सामानर-
 मन्°, समुद्°, संप्र°, सर्व°, साहु-
 छ°, साधकतमत्व°, सु°, सृष्टि°,
 स्थिरता°, रथ°
 योग-क्षेम- निद्र°
 ३योग- अतिशय°, अष्टात्र°, आत्म-
 संयम°, कर्मन्°, क्लम°, तच्छेदग-
 त्पुत्रसृष्टि°, सत्य°, ४तारक°,
 तीर्थ°, दिव्य°, देहगोपण°,
 १धन°, प्यान°, प्यानफल°, नि-
 रालम्ब्य°, प्राणायामप्र...धि°,
 यमनियमास...ष्यष्टात्र°, यमाच-
 ट्ठात्र°, राजन्°, सन्ध°, लय°,
 १शिव°, सकल°, सत्यसिद्ध°,
 सालम्ब्य°, सालम्बनिरालम्ब्य°,
 हंस°, हठ°
 ३-४योग- गपू, पृ६९२ द.
 ५योग-> १योगिन्-गपू, पृ६९२ द
 योगे(ग-ई)धर- महत्°
 ६योग- २सांख्य°
 *योग-कुण्डलि(रु>)नी१०-
 कठवल्ली°
 योग-चूडा-मणि१०- केन°°
 योग-ताव- कठवल्ली, तेजस्°
 योग-निद्रा- अजाप्यस...रक°,
 लन्ध°
 *योग-पट्ट- ब्रह्मावलोक°
 योग-पीठ- सर्वात्मसंयोग°
 योग-माया- महत्°
 *योगमाया-विलास- अ-
 न्त°
 योग-युक्ति- ४अ°
 *योग-रूप- मनःप्रवाह°
 योग-शिल्पा- कठवल्ली°

*योगा(ग-अ)भूत- प्रियाचिवा-
 दि°
 ३योगिन्- गभिः जाद ३, ६,
 ३°, -मी पदं छ°. [०-४अ°
 अनादि°, अभ्यास°, आदिप्रति°,
 आनन्द°, सामान्यतन्म°, १देव°,
 १पर°, परम°, प्रकृति°, महत्°,
 २योग°, संन्यासिन्°, सर्व°
 योगिनी- गणेश°°, नाद°°
 रेणुका°
 *३योगिन्- प्रति°
 योग- ४अ°, १अत्र°, आत्म-
 दर्शन°, आनन्द°, श्रीदाम्भार°,
 गुणगण°, तल्लीला°, तल्लीलादर्श-
 न°, २दर्शन°, नित्यरूपलतामीय°
 प्र°, प्रतिशर°, १धन्ध°, भजन°,
 १भोग°, यथा°, रचित°, रमण°,
 १रमणानन्द°, रमणानन्ददर्शन°,
 रहस्यलीला°, राज्य°, रासली-
 ला°, लय°, २लीला°, सम्°
 योग-ता- आनन्द°, तदावेश°,
 तल्लीला°, तल्लीलादर्शन°, महा-
 लीला°, १रति°, रतिगति°, रम-
 णानन्ददर्शन°, रूपग्रहण°, २ली-
 ला°, संयोज्यमा...पति°
 *योजक- प्र°
 १योजन- १आकार°, ३धारणा°,
 प्र°, प्राण°, सम्°
 योजना- आसनान्तर°
 योजित- कनकतुला°, नि°, फल-
 पुष्पम...लित°, मण्णहीर...क°,
 विनि°, सम्°, सायुमति°
 *योज्य नि°, प्रति°, विनि°
 योज्य- सम्°
 युत्- युक्ति- √यु (मिश्रणे) परि. द.
 √युष् आ°, प्रति°
 युद्ध- मरुण°, १मारण°°
 *युष्- आ°
 *योजन- दुर्°

a) अर्थः।। b) वैपश् यद.। c) =तदाख्योपनिषद्-विशेष-।। d) अथ्वा यो. अथा.। e) अथ्वा सं. कृपा.।

*बोध्-४अ°
 युग्मत्->त्वम् जगत्°, तद्°
 यूय-पिक°, वि°, १शुक°, शुक्रपिक°,
 सखी°, स्व°, हंस°, हंससारत्°
 यूयिका°-४जाति°, २मुक्ता°, सुवर्ण°
 पै°/या (परि.) द.
 योक्ष्यमासु-१-३योगिन्-योजक-
 युज् (परि.) द.
 योजन-अनन्त°, अयुतद्वयकोटि°,
 अयुतायुतकोटि°, एकविंशति°,
 चतुर्°, त्रिकोटि°, दशकोटि°,
 दशन्°, पञ्चन्°, पञ्चविंशत्°, पञ्च-
 विंशति°, पञ्चाशत्कोटि°, बहु°,
 शत°, पदत्रिंशत्कोटि°, सपादकोटि°
 सप्तकोटि°, सहस्र°, सहस्रकोटि°

योज्य युज् (परि.) द.
 योघन-युध् (परि.) द.
 योनि-निः मउ २०, ८५°. [नि-
 ४अ°, अञ्ज°, अमृत°, अष्टन्°,
 आत्मन्°, २आय°, इन्द्र°, इन्धन्°,
 उत्तरोत्तर°, उपस्थ°, ऊर्ध्वसंपुट°
 एतद्°, क्षत्रिय°, युद्°, चण्डाल°,
 चतुःशीतिलक्°, जगत्°, तिर्थ्य्°,
 दशन्°, दुःख°, १देव°, द्वि°, ना-
 ना°, पथन्°, १पाप°, पूर्व°, प्रति°,
 १बीज°, १ब्रह्मन्°, १ब्राह्मण°, भू-
 त°, मूढ°, १विरव°, विरवजगत्°,
 वैश्य°, शास्त्र°, शिवकर्मन्°, श्वन्°
 पप्°, पस°, सदसत्°, सर्व°, सर्व-
 देकोद°, सूकर°, स्त्री°, स्व°
 योनि-सुदा-सर्व°
 *योनि-बहस्र-पूर्व°
 योस्(>) शम्°
 यौक्तिक-युज्(परि.) द.
 यौचनाध्य-यु (मिश्रणे) परि. द.

र

धर-३भ°
 ✓रह्->रहस्-वैराग्य°
 ✓रज्(बधा.) अभि°, परि°, समु°
 १रक्ष-सर्व°
 २रक्ष,क्षा-अभि°, आत्मन्°, उद-
 क°, मो°, १पर°, प्रत्यक्ष°, १राष्ट्र°
 वायु°, विवेक°, सकललोक°, सर्व°
 रक्षण-अभि°, त्रैलोक्य°, दुःखापा-
 जेन°, देह°, देहैक°, लोक°, शक्ति°,
 सकललोक°, समु°, सर्गादि°
 रक्षित-शङ्खचक्रगदारार्थं°, सु°
 रक्षित्-परि°
 *रक्ष्य समु°
 रक्षस्-पितृ°, २यत्°, १विय°,°
 शनि°, सर्व°, सिद्ध°
 राक्षस-१असुर°, गन्धर्व°,°
 १ब्रह्मन्°, भूत°, २यत्°, सर्प°
 *रक्षो(स्-अ)धिनाथ-विदशोभूत°
 १रघु->२रघु->राघव-आदिब्रह्म-
 न्°, १ब्रह्मन्°
 ✓रच् अतु°
 रचित-अतु°, आभरण°, चन्द्र-
 कान्त°, १नानारत्न°, पुष्पराग°,
 भूमि°, मृगमदायुष्°, सु°, मुग्ध-
 पुष्पसिकता°
 *रच्यमान-सु°
 *रज्-४अ°, वि°
 रजत-२प्रवाल°, युक्तिका°, रफटि-
 क°
 रजनि(>)नी-२वासना°
 रजस्-अधोर्ध्व°, धर्म°, निर्धूत°, पर-
 त्°, पीठ°, १भू°, महत्°, वि°,
 शान्त°, शीत°, सत्व°
 राजस-तामस°, सत्व°, तारिच-
 क°
 *रजःपुञ्ज-तद्°
 *रजस(क)-४अ°
 रजो(ज्-अ)श-अपधीहृत*त°

१रजो-गुण-आकाशादि°
 *रजो-रसस्-स्व°
 रज्जु-२खग°, तद्°, दुर्वासना°, वात°,
 संकल्पवासना°
 *रज्जु-गण-तृष्णा°
 *रज्जु-तत्त्व-प्रबुद्ध°
 रज्जु-सर्प-कल्पित°
 ✓रज्ज्(बधा.) अतु°, उष°, वि°
 १रक्त-अतु°, उष°, कौमुभमाञ्जि-
 ष्ट°, १प्रेमानन्द°, वि°, ६स°
 २रक्त->३रक्त-१अणु°, भा°,
 १नील°, २पीत°, १रवेत°,
 २सित°
 ४रक्त-१त्वच्°, सूत्र°, स्वेद°
 *रक्त-बीज-१-२गुण°
 *रक्तबीज-दनु-ज-निरयो-
 पीडित°
 *रक्ति-अतु°, वि°
 रक्त-४अ°, अनेक°, नाना°, यावक°,
 १रति°, रस°, २राग°, विदुम°,
 विलास°
 *रक्त-धामि(म-ई)धर(>)री-
 धी°
 *रक्त-भोग-१वसन्त°
 *रक्ता(ङ्-अ)वचारिन्-चाट°°
 *रजन-महत्°
 *रज्य उष°, वि°
 *रम्जक-चित्त°
 १रम्जन-
 *२रम्जन-सर्व°, सर्वदुःख°
 *३रम्जन(>)ना-अतु°
 रज्जित-अति°, अनेकत्त्वं°, पातु°,
 नानाराग°, प्रथमसङ्ग°, यावच्छक्त°,
 विदुमत्त्वं°
 १राग-१भङ्ग°, अतु°, उष°, १काम°
 नी°, १पद्म°, पुष्प°, मोह°, वि°,
 १पीत°, ६स°
 शाग-श्रेच-४अ°

१-३२- गृ. ५६१७ द.

a) धु. ? = पुष्पविरोध- । b) मा ८, ४० । c) = रजस्- । d) = रासविरोध- । e) गृ. (५०००) दनि.

संक्षयानिर्देशः द. । f) कर्त्तरि कृत् ।

पारा°, पुनरावृत्ति°, प्रपय°,
 भस्मन्°, भावमात्सर्य°...दादि°,
 मन्त्र°, मलमूत्र°, रमानृष्य°,
 माया°, लयविक्षेप°, रवातना°,
 वि°, विकार°, शिखायज्ञोपवीत°,
 शोकमो°...द्वेग°, पद्कोरा°, पद्-
 मि°, पद्मिप°...द्वेग°, संकल्प°,
 सङ्ग°, संचारधर्म°, राखरज°...
 ण°, सर्वदृश्य°, सर्वदोष°, सर्व-
 संकल्प°, स्वयंभावं°, स्वात्मवन्ध°
 द्विद्यादि°

*राहित्य- अनुसंधान°, देरा-
 का°...च्छेद°

√रा>राति- ४अ°

*री(<रि)- कर्त्त°

१राक->राकि(रु>)नी°- भूत°°

१-३राग- √रम्ज् (परि.) द्र.

√राज् नी°, वि°, संवि°, सम्प°

*राज्- १अदि°, १चक°, १ज्येष्ठ°,
 धर्म°, भूत°, मुनि°, रजोगिन्°,
 वि°, सम्प°, स्व°

*राजव्- वि°

राजन्- -जा मना १, १५५° [०ञ्-
 ४अ°, अन्य°, महाहृद्, सप°]

राज्ञी- ३पट° विद्या°, १सोम°

*राज- धनज्ञ°, १काम°, काशि°,
 तन्त्र°, १देव°, धूर्त°, नगर°, प-
 च्छिन्°, मधुकर°, १मनु°, मन्त्र°,
 महत्°, रथज्ञ°, यन्त्र°, रयोग°,
 राजन्°, रेश्वर°, विन्न°, विद्या°,
 राक्किट°, सकल°, सम्प°, समुद्र°,
 सर्व°, सर्वकोटि°...दा°, १सिन्धु°,
 स्तव°, हेति°

*राज(क)- ४अ°, १काम°

राज-धा(न>)नी- नगर°°

राज-योग- परिपूर्ण°

राज-इयाम(ल>)छा- श्री°

राज्य- त्रैलोक्य°, मदन°, १म-

नम्°, १यम°, वि°, १मूर्त्ये° १सो-
 म°, स्वात्मन्°

*राज्य-भिक्षा- स्वप्नस्थ°

राजन्- नी°

राजमान- आरहमणि°...राजि°,

छुद्रपरिष्टका°, ज्योरत्ना°, नाना-

रत्नम्°...दि°, वि°, संवि°, गम्°

राजित- वि°

२राजि- रघन°, चिन्मयान°...ष्वज°,

तेजःपर्वत°, मणि°, रोमन्°, हाट-

क्षेपपटितनी°...णि°

राजि- रकाल°, रघटिका°, दिवा°,

नवन्°, १मदन°, १शिव°, संसार°

१धंष्या°°, सप्तम्°, सर्व°

*राज- अति°, अर्ध°, अहन्°, एक°,

त्रि°, दिवा°, द्वादशन्°, द्वि°,

द्विगन्त्°, पयन्°, १शिव°, सप्तम्°

राजि-कृत- -सम् दना ४९°.

√राष् भुव°, अप°, आ°, वि°, सम्प°,

समा°

*रादि- वि°

राघन- आ°, सम्प°, समा°

*राधया- आ°

१रा(ध>)घा°- २कृष्ण°, श्री°

राधा-कृष्ण-, *राधा-रसिक-,

>राधारसिक-शिरो-मणि-,

राधा-रसि कानन्द-, रा(धक>)-

धिका-, >*राधिका-रसिक-,

*राधिका-बहुभ- श्री°

*२रा(ध>)घा- अनु>नू°

*राधित- आ°

*राध्व आ°, समा°

*राध्व- डुरा°

१-३राम- √रम् (परि.) द्र.

√*राष्(<राज्)> १राष्- घृत°,

शु°

१राशि- अङ्गुल°

२राशि- द्वादशन्°

*३राशि- अपरिच्छिन्ना°...तेजम्°, अ-
 मिततेजस्°, अमिततेजोरा°...
 जम्°, अम्पु°, आशिम्°, रजल°,
 तदन्तर्गतमीवि°, सूल°, तेजम्°,
 तेजोऽज्वाला°...निरातिरायदि°...ज-
 स्°, निरतिरायानन्दतेजम्°, निर-
 तिरायानन्दादिव्यतेजम्°, पयम्°,
 मदानेजम्°

राहु- मोह°, शनि°

√रिष्> रे(र)>भ्रा- अनङ्ग°, उप°,
 ऊर्ध्वम्°, १चिद्र°, रजत°,
 तृतीय°, त्रि°, त्रिपुरम्°, द्वि°,
 द्वितीय°, नवन्°, नाना°, प्रथम°,
 मानवष्टि°, १षष्ठ°, शशिन्°,
 साध्याद्या°...द्व°, सु°, सूक्ष्म°,
 हेमन्°

√रिष्, > रेचि अति°, उद्°, वि°,
 व्यति°

रिष्- अति°, अहंकार°, उद्°, कृष्ण-
 पञ्च°, चित°, व्यति°, सर्वसङ्ग°

*रेक- अति°, उद्°, व्यति°

रेचक- २पूरक°

रेचन- वि°

रेचित- पूरित°

*रेच्य वि°

रिष्- ४अ°, महत्°

√रिष् अनु°, वि°

*रिष्ट- ४अ°, वि°

*रिष्टि- ४अ°

√री उद्°

रय- रजल°, देशान्त°, द्वीपान्त°,
 नयन्त°, महत्°, लोकान्त°

*रीति- राब्दादि°

*रीयाज- उद्°

√रु> *रुव- २घण्टा°

रावण- गणेश°, नन्दिसेन°
 *रुत- सर्वजन्तु°, सर्वभूत°

√रुच् अति°, अभि°, वि°, सम्प°

a) अथ ९, १७, ४० (त. टि. वैपश् यस्था.) । b) घमा. द्र. । c) अश्याः शै. अया. । d) गम्. (पृ७११)

यनि. संख्यानिर्देशः द्र. । e) व्युः? =सम्पू- ।

रुक्म->रुक्मि(न्>)णी->

*रुक्मिण्या(णी-आ)दि-१अङ्ग°

रुच्-कृत°, सु°

*रुचक- कनक°

रुचि-४अ°, अन्यविधा°, रउपास-

ना°, कर्णकुं...स्त्ना°, परहिंसा°, यथा°, १विवर°, शीत°

रुचिर-कदलीकाण्ड°, स्वर्ण°

१रोचन-अभि°, वि°

२रोच(न्>)ना-गो°

१रोचमान-सम्°, सु°

*रोचिस्->१रोचिष्-मत्-अति°

२रोचिष्मत्-१नन्द°, २सु-

श्लोक°

✓रुज् आ°

*रुज-नी°

रुजत्-आ°

रोग-४अ°, अक्षि°, १कर्ण°, १का-

म°, कुक्षि°, कुठ°, २मह°, चक्षु-

स्°, जरा°, १त्वच्°, दैत्य°, नी°, त्रेत्र°, १पाप°, बहु°, २अव°, महत्°, १भूल°, १विष°, शिरस्°, संसार°, सर्व°

*रोग-जाल-निर्मुक्त°

रोगा(ग-आ)र्त-कृश°

✓रुद्>१रोदम् १पुत्र°

१रुद्र-उमा°, एकादशगुण°, एकाद-

शत°, कालाग्नि°, केन°, पीठ°, १रुद्रन्°, भद्रजाति°, महत्°, २माधव°, वसु°, वायु°, विरि-

चिच्°, विष्णु°, धी°, सदाशि-

व°, सीतन्°, १सोम°

रौद्र-अनन्तपो...मिन्°, प्रलय-

काल°

१रुद्र-शत°

*रुद्रा(द्र-अ)प्याय-कल्पस्ताव-

नादि°

रुद्र-मन्त्र-सकल°

रुद्र-हृदय-कठवल्ली°

रुद्रा(द्र-अ)क्ष-एक°, पद्माल°, २प्रवाल°, भसित°, भस्मन्°, ३भृति°, विभृति°, स्फटिक°, स्वात्मानन्दा...न°

रुद्राक्ष-धारण-त्यक्त°

*रुद्राक्ष-पृक्ष-महत्°

✓रुध्>रोधि अनु°, अव°, आ°, उद्°

उप°, नि°, प्रति°, वि°, संनि°, सम्°

*रुद्ध-नि°, वि°, शक्ति°, संनि°, सम्°

*रुध्य अव°, उप°, नि°, संनि°

*रुद्धव्य-नि°

रोध-अव°, आधारवात्°, उप°, तद्भूति°, नि°, प्राण°, वि°, सम्°

*रोधक-प्रति°

*रोधन-प्राण°

*रोधिन्-अव°, वि°

*रोध्य सम्°

*रुध्(<द्)-वी°

रुधिर-इत्वच्°

✓रुप्>रोप-१काम°

✓रुह्>रोपि, रुह् अति°, अधि°, अध्या°, अन्वा°, अभ्या°, अव°, आ°, उपाव°, प्र°, वि°, समा°

रुह्यु-आ°

*रुह-अम्बु°, अम्भस्°, २धाना°, १भू°, वज्रस्°, शिरस्°, १सरस्°

*रुह्य आ°, समा°

रुह-४अ°, अन्वा°, आ°, देह°, यानादि°, प्र°, समा°

*रोप-अध्या°, आ°

*रोपित-आ°

*रोप्य आ°, समा°

*रोह-अभ्या°, अव°, आ°, प्र°

*रोहण-आ°, प्र°

*रोहत्-अव°, आ°, प्र°

२रोहि(न्>)णी-रसातल°

✓रुच्>रुक्ष-कडु°

✓रूप>पि नि°

१रूप-यम् ते १, ३१° [°प-

४अ°, अकार°, अकारोकार°, अ-

कारोकारमकार°, अक्षभिदेवता°, अखण्डाकार°, अखण्डाकारा°, अखण्डानन्द°, अखिलाविश्व°, अग्नि° प्रवृ.]

*१रूप(क)-४अ°, अखण्ड°, अधूमज्योतिस्°, उभय°, एक°, ज्ञानमुद्रात्मन्°, ज्ञानविज्ञान°, ना-

दान्तज्योतिस्°, पञ्चामि°, बुद्धि°, भोकृभोज्यादि°, २वात्सना°, विशे-

पावृति°, शान्त°, १सधिदानन्द°, सिंह°, स्वप्रकारात्मन्°

२रूप-क°->*रूपक-विन्य-

स्त-शरीर°

रूप-गुण-सृष्टि°

*रूप-ज्ञ-४अ°

*रूप-लावण्य-लवक-सूक्ष्म-

स्वरूप-अति°

रूप-वत्-४अ°

*रूपा(प-आ)विर्भाव-प्रादु-

र्भाव-स्मरणमात्र°

*रूपण-, *रूपयत्-, *रूपित-, *रूप्य, *रूप्यमाण-नि°

रूप्य->रौप्य-२जल°, सौवर्ण°, हेमन्°

रेफ-, रेच्य ✓रिच् (परि.) द.

रेणु-कोटिब्रह्माण्ड°, खण्डो...त°

रेत-ऊर्ध्व°

रेतस्-त-कुं २३:१° [°स्-४अ°, ऊर्ध्व°, रजस्°, १वाच्°, सु°, सुवर्ण°, हिरण्य°]

रेफ-१काम°

*रेफ-जात-४अ°

+✓रे अग्नि°

+रैवत^{११६}-शाकर°

+रैवतक^{११७}-क्षेत्रकेटु°, २संवर्तक°

a) स्वरु° इति अश्या. । b) यप्. (१७१६) यति. संख्यानिर्देशः द. । c) घन्नाः सं. अया. । d) धीर

+राग-द्वेष-विहिंसा-दग्ध-
अत्युप्त°
+राग-भय-क्रोध- १वीत°
+राग-विषय- १वीत°
रागिन्- सु°
रराग->+राग-भेद- तन्तुपाय°
+राग-रह-भोग- नाना°
+३राग- नाना°
रत्न-आत्मन्, लुद्र°, २प्रद°, त्रिदरासु-
कुटकोटि°, दुःख°, दोष°, नवर्°,
नाना°, बहु°, मन्त्र°, महत्त्व°, सर्व°,
हेमन्°
+रत्न-कुटी- तदभूमि°
+रत्न-कुल्य- कोटिवैकुण्ठव्याप्ति°
रत्न-सिंहासन- आधारशक्ति°
रथ- अरमन्°, अश्वतरी°, १आकार°,
गङ्°, १चित्र°, जयत्°, तद्°,
दशान°, १देव°, १शुद्ध°, महत्°,
१शिव°, ६म°, सप्ताक्ष°, सुषण्°
रथन्तर- २शुद्ध°
√रद्>रद->रदा(द-अ)व(सि)>-
ली- ऊर्ध्व°
+रदन- कुन्द°
√रघ्(°बधा.)>रघ्>रन्ध्र- ऊर्ध्व°,
प्राण°, नवर्°, नाभि°, नासिका°,
नी°, १पर°, १प्रक्ष्वन्°, मूलचक्र°,
व्योमन्°
+रन्ध्र-द्वय- १कर्ण°
+√रप्>रपस्- ४अ°
रपिदान- वि°
√रभ्(°बधा.)>रभ् अन्वा°, आ°,
प्रा°, सम°, समन्वा°, समा°
+रिच्य- आ°, प्रा°, सम°
+रभमाथ- आ°
+रभ्य आ°, समा°
१रभ->रभ्भा- राजन्°
+रभ्भा-फल- मोदक°°
२रभ->रभ्मा- गप्, पृ००२ द्र.

+३रभ- आ°, प्रा°, राप्°, गमा°
+रभभ- आ°
+१रभभग- आ°, समन्वा°
+√रभ्(राच्चे)>रभ्>२रभभग-
आ°
√रम् अभि°, आ°, उप°, मि°, वि°,
समा°
रत्- अतिगुणगणना°, अन्वधर्म°,
अभि°, अभ्यास°, अव°, आत्म-
माया°, उप°, कर्मकाण्ड°, कर्मन्°,
कर्ममार्ग°, १काम°, कामात्धिक-
ल्लोल°, काष्ठदाह***र°, कृष्ण-
गोपी°, वैतथ्यधर्म°, चीरपाप°,
तमोधर्म°, १दुराचार°, ति°,
नूतनस्वाविर्भाव°, भक्तिमार्ग°,
भस्मस्नान°, योगाभ्यास°, लामा-
लामा°, वि°, विष्णुभजन°, वेदवा-
द°, वेदोक्तकर्ममार्ग°, शिवराजा°,
शुद्धचिद्र***न°, ध्रुवणक्रीत-
न्दन°, १सत्यधर्म°, संदाचार°,
समा°, सु°, सुरामांस°, स्वात्मन्°
१रति- ४अ°, अति°, अध्यात्म°,
आत्मन्°, आनन्द°, उप°, एक°,
१काम°, प्रीडा°, गति°, गुण°,
दर्शनस्व...ला°, नाना°, २भक्ति°
रसलीला°, रसिकानन्द°, रंचिर°,
२लीला°, २वर्ण°, वि°, विष्णु°,
६स°, संयोज्यमाण°, सुखरूप°,
स्व°, स्वयम्°
+रति-कौतुक- अति°
+रति-क्रिया- स्वात्मन्°
+रति-ज्ञ- अति°
+रति-द- १निःशङ्क°
रति-दुष्ट- आदिहेतु°
+रति-ध्यान-कीर्तन- संस्थाप-
क°°
रति-प्रीति-, +रति-भक्ति-,
+रति-भोक्तृ-, +रति-मग्न-,

+रति-रमण-कोटि-काम-
पूर्ण-, +रति-विश्वरिन्-, +रति-
संचरित- अति°
रति-सुख- अनेकभोगरत्°
+रथाति आ, विष्ट-चित्त- अ-
त्यन्त°
१रम->१रमा- १तार°°
२रम- १मनल्°
२रमा->रमा-रमण- ध्रीमर्°
३रम->३रमा- ४अ°
१रमण- आनन्द°, पुरुषोत्तमरति-
कानन्द°, रमणरत्°, रत्°, स्व°
रमण-स्थान- नाना°, महत्त्व°,
+२रमण- उमा°, रति°, २रमा°
+३रमण- २सुरलोक°°
रम्य- ४अ°, अति°, प्रशान्तफलना°
१राम- मः रा२, २५!। [म-
२कृष्ण°, परशु°, १वल्°,
२मत्स्य°, महाविष्णु°, घीर°,
शिवोमा°, धी°, ६स°, सीता°]
+राम-कृष्ण-माला-मन्त्र- प्रण-
वधी***दित°
राम-चन्द्र- शिवोमा°, धी°
+राम-साप(न)>नी! २-
प्र-
श-
+राम-द्राक्ष(रा-अ)क्षर- हुं-
फन्तिसहित°
राम-लक्ष्मण- धी°
+राम-रहस्य! २-२प्रक्ष°°
+राम(म-अ)ङ्क- पङ्को***र्य°
२राम->रामा- गप्, पृ००५ द्र.
+३राम- अभि°, आ°, १मनल्°,
वि°
रव- √क(परि.) द्र.
रवि- अतिनिर्मला***ष्टि°, अनन्तको-
टि°, अरुख°°, इन्दु°, १चित्°,
विन्दु°, १महान्°, १मित्र°,
शशिन°

a) =२वर्ण-। b) वैपरी यद.। c) भाप.। d) भाप. (गप्, पृ००३) यनि. संख्यानिर्देशः द्र.। e) कर्तारि
हृत्.। f) श्रीरा इति निषा. यनि. शोधः द्र. (तु. अञ्जा.)। g) =तदास्फोपनिषद्-विशेष-

रशना- रूप°
 रश्मि- शीत°, सहल°, १स्य°
 *रश्मि-मण्डल(ल)>ली- रवि°
 ✓रस्(°बधा.)>रसि>रस- ४अ°,
 अगुह°, १अङ्ग°, अति°, अनन्त-
 प...मृत°, अनेक°, अन्तःकर-
 ण°, अन्न°, अन्नमय°, अन्य°,
 अमृत°, अमृतोपनिषद्°, अशेष°,
 असार°, आयम°°, जातमज्यो-
 तिस°, आत्मन्°, आनन्द°, आ-
 लिङ्गनचु...भर°, इलु°, एक°,
 औदार्य°...म्य°, कटुतिक्तक...र्य°,
 कटुतिक्तमा...ष्ट° कर्पूर°, १काम°,
 कामकेलि°, कुरबंक°, १केवल°,
 केशच्छट्टा...घ° केशर°, केश-
 र°°, क्रीडा°, खाद्ये...प्य°,
 गंत°, गन्ध°, गीत°, गो°, दृत°,
 १चित्°, १चिदानन्द°, जिह्वा°°,
 ज्ञानादृत°, तदुपकरण°, तेजस्°,
 तैल°, रदधि°, रदुग्ध°, दुग्धद-
 धिनवनीत°, नवनीत°, नाना°,
 नी°, पक°, पककल°, परम°, परि-
 पूर्णच...त°, परानन्द°, परमृत°,
 पाक°, पिष्ट°, पुष्प°, पुष्पमिष्टा-
 मृतमय°, वृथिवी°°, प्रत्यय°,
 १फल°, फारष्ट°, १त्रहान्°, ब्रह्मा-
 नन्द°, ब्रह्मामृत°, भक्तिमार्ग°,
 १भोग°, मधुराम्ल...य°, महत्°,
 मिष्ट°, मेष्वाभेध्य°, यावक°, रत्न°,
 १रति°, १रति°°, रतिभर°,
 १रमण°, २राम°, रूपशोभासं-
 चरित°, लयहीन°, १वाच्°, वि°,
 विधिप°, शब्द°, शब्दबीज°,
 शुक्तिममात्र°, शृङ्गार°, यप°,
 ६स°, संकेत°, संगम°°, संगीत°,
 १पत्°, १सदानन्द°, १राम°, सं-
 भाषित°, मर्ष°, सर्वज्योतिष्°, ३°
 सुयदुःख°, १सुगन्ध°, २सुगन्ध°,
 सुपन्थमाधि°, १सुरत°, सुरतानन्द-

रूप°, सेचन°, स्पर्शबीज°, खञ्ज°°,
 स्व°, स्वात्मानन्दा...ल्लोल°,
 रवानुभूति°, स्वेद°°
 *रस-कल्लोल- नौका°
 *रस-क्रीडा- सुखभोग°
 *रस-गुणा(ण-आ)ह्य- अति°
 *रस-तन्तु- इच्छाज्ञा...मत्°
 *रस-दग्ना(न-अ,भि(ज्ञ))->
 ज्ञा- अति°
 *रस-पूर्ण- अति°
 *रस-भाव-भेद- नेत्रहा...म°
 *रस-भोग- अनन्त°
 रस-मग्न- अति°, अत्यन्त°
 *रस-मला(ल-अ)प्त- रूपादि°
 *रस-रमण- अति°
 रस-रमट- अति°
 रस-लीला- सर्वलोक°
 *रसलीला-मर्म- अत्यन्त°
 *रस-संपाद- अनन्त°
 *रस-सुख- ६स°
 *रससुख-रसिक-शिरो-म-
 गि- अत्यन्तप्रवीण°
 *रसा(स-आ)ह्य- अति°
 रसा(स-आ)स्वादन- परावैक्य°
 रसिक- ४अ°, आनन्द°, कुत्र-
 केलि°, जलकेलि°, यमुनाकेलि°,
 रससुख°, १राधा°, संगीत°, १शुग्-
 न्ध°
 रसिक-शिरो-मगि- धी°,
 संभावितजित°
 रसिहा(क-आ)नन्द- काम-
 कर्तु...त°, निद्रासंभा...स्कृत°,
 पुरुषोत्तम°, १राधा°, श्री°, सुरता-
 नन्दस...त°
 १रमन्- चतुष्प°°, १वाच्, धोष्प°°
 २रस(न)>मा-> *रसना(ना-अ)-
 प्र-निरीचन- गणु°
 रसविष्ट- ४अ°
 राग- १दान°

*रास-केलि-कला- परस्पर°
 रास-क्रीडा- निरन्तर°, सदा°
 *रास-ज्ञान- २कल°
 *रास-चवर्- मधुरावन°°
 *रास-स्थल- निकुञ्ज°, महत्°
 रसातल- अंतल°°
 ✓रह्(°बधा.)>रह- वि°
 रहस्->रहसिक- २वेद°
 रहस्य- अति°, आरमन्°, क-
 लि°°, गायत्री°, नित्यविहार°,
 परम°, परमतत्त्व°, परमतत्त्व-
 कैलास°, परापर°, पुरुषसूक्तो-
 पनिषद्°, प्रपञ्च°, मद्भिमत°,
 मन्त्र°, रस°, राजश्यामला°, धी-
 राजश्यामला°, ६स°, सकलवेदा-
 न्त°, सिद्धांत°, सर्वे°, सर्वविद्या°,
 सर्वशुति°
 *रहस्य-पूजा- काम्य°
 *रहस्य-मार्ग- श्रुत्वादा°
 *रहस्य-स्थल- अथाधक°
 *रहस्यो(स्य-उ)पनिषद्-
 अह- ६स°
 *रह-स्थल- अथाधक°
 रहित- अन्यधर्म°, अन्यमार्ग°,
 अन्यासक्ति°, अरोपयाद्य°, वाह-
 भाव°, आद्यन्त°, आपार°, आ-
 धि°, आविर्भावतिरोभाव°, उधा-
 र°, उधारण°, उत्पत्तिविनाश°,
 उद्देगानन्द°, उन्मेष°, उपाधि°,
 कटकमु...धि°, कर्मन्°, रम्य-
 ना°, कलाकलह°, ३कल्पना°,
 कामरागादिरोप°, कामादि°, गु-
 ण°, २चैत्य°, चैत्यंश°, चैत्यानु-
 पात°, २जल°, शान्तैरामय°, ज्ये-
 ष्ठाधि...न°, तद्, तत्परश°,
 १तार°, १मिगुण°, मिपुडी°,
 देहादि°, दितीपवस्तु°, १द्वैत°,
 देहाद्वैत°, धर्मबंधन्°, ध्वनिच्छा°,
 धनकार°, नेत्रादि°, परिच्छेद°,

१-श्रोत्रिष्मत्-, श्रोत्रि- √रुच्
(परि.) द्र.

रोदम्- √रुद् (परि.) द्र.

रोद्धव्य-, रोधक-, रोधन-, रोधिन्-,
रोध्य √रुच् (परि.) द्र.

*रोध- आम्र°

रोप-रोपित-रोप्य √रुह् (परि.) द्र.

रोमन्- अस्थि°, १कूर्म°, केरा°,
तद्°, १त्वच्°, नळ°, १पशु°,
गुडु°, १वज्र°, हृष्ट°

रोम-कूप- अनन्त°, एकैक°

*रोम-रात्रि- १ग्व°

*रोमन्थ- बहुशस्त्रकयाक्रया°

रोप- √रुप् (परि.) द्र.

रोह-, रोहग-, रोहत्- √रुह् (परि.) द्र.

रौरव- महत्°

*रवत्. १ गृ १, १३.

ल

१ल-

२ल- √ला (बधा.) परि. द्र.

३ल- √ली (परि.) द्र.

√लक्ष् आ°, उप°, प्र°, वि°, सम्°

लक्षण- ४अ°, अखण्ड°, अखण्ड-
परि...न्द°, अदृश्यत्वादि°,
अद्वैतपरमानन्द°, अनुष्ठान°,
अन्तरापीत°, अन्तर्लक्ष्य°, अ-
भ्यास°, अगनस्क°, अमानित्वा-
दि°, अमितापरि...न्द°, अरिनि-
श्रदि°, अलौकिकपरमानन्द°,
अरिता°, अस्तित्व°, आनन्द°,
१इतर°, उष्°, उप°, उपधीत°,
एवम्, कण्ठयंत्रेषु, कर्तृत्वभोक्तृ-
...दि°, विद्°, इत°, चिन्मय°,
२जाति°, जीव°, जीवन्मुक्ति°, तद्°,
तमस्°, विमूर्ति°, दशन°, धर्म°,
धर्मादि°, निरु°, निरतिशयपरमा-

नन्द°, निरतिशयादि...न्द°,
२निरतिशयानन्द°, निरस्ताति-
...क°, परिदत्त°, परमह...क°,
परमानन्द°, परिव्राजक°, पथिम-
द्वार°, पृथक्°, प्रज्ञानघन°, प्रवृत्ति°
बहिलक्ष्य°, मन्नाह°, मन्थलक्ष्य°,
१मोक्ष°, यज्ञाह°, लक्ष्य°, लीला-
रुही...न्द°, वस्तु°, वायु°, वि°,
विष्णुक°, विश्वप्राज्ञादि°, वेष्टना-
म्बर°, व्योमपञ्चक°, शान्तादि°,
शंभवी°, शुद्धबोधानन्द°, शु-
द्धादि...न्द°, श्रीवत्स°, ६स°,
१साविदानन्द°, सत्यज्ञानादि°,
सत्यज्ञानानन्दपूर्ण°, सत्यज्ञाना-
नन्दादि°. सत्यप्रज्ञान°, संन्यास°,
सर्व°, सर्वतत्वादि°, सर्वपरि...
न्द°, सर्वसाक्षित°, सर्वद्वैत...
न्द°, सारिकरा...स°, सु°, स्व°
*लक्षण-क- दशान्° प्रेमन्°

लक्षित- ४अ°, आ°, उप°, विमूर्ति-

लक्ष्यं, बहिम्°

लक्ष्य- ४अ°, अन्तर्°, अन्तर्बाह्य°,
एक°, तत्तद्°, तत्त्वमस्यादि°,
तत्त्वंपद°, तत्प्रत्यय°, तद्°, ४ता-
रक°, त्रि°, दुर्°, बहिम्°, बा.प्रा-
भ्यन्तर्°, मध्य°, १मनस्°, विष्णु-
वि...न°, १शिव°, सम्°, सु°
*लक्ष्या(क्ष्य-अ)र्थ- त्वमहंशब्द°

लक्ष्- अष्टम्°, चतुरशीति°, दशन°,
द्वादशान्°, नवन्°, पञ्चन्°, भातु°,
१वर्ण°, १वर्ष°, शत°, षट्षिंशत्°,
षट्सहस्र°, षट्सहस्र°

लक्ष-क- अक्षर°

*लक्ष-चतुष्टय- १वर्ष°

लक्ष्मण- १राम°, सीता°

लक्ष्मी- ४अ°, अनन्तमो...ज्य°, अ-

विया°, २जय°, १तार°, २वहेशा°

१देव°, महत्°, माया°, १मोक्ष°

स्तान°, २योग°, योगमाया°,
राजन्°, राज्य°, ३वर°, विष्णु°,
वीर°, श्री°, सर्व°, सिद्ध°, सौमा-
र्य°, स्व°

√लग् वि°, सम्°

लग्न- कण्ठ°, वि°, सम्°, सु°

लघु- देह°

लघव- देह°

लघु-ता- शरीर°

लघु-पाप°-

लघ्या(घु-आ)हार- १निःसङ्कल्प°

√लह् उद्°, वि°, समुद्°

*लह्न- उदधि°, वि°, व्रतनियम°

*लह्य उद्°, वि°, समुद्°

*लह्य- ४अ°

√लज्ज > लज्ज, जा°- ४अ°, १का-

म°, निरु°, लक्ष्मी°, ६स°, सु°,
सुरतकला°

*लङ्कु > लङ्कु-क- तिल°

लता- अनेक°, कदम्ब°, ४कल्प°, कुञ्ज-

विद्रुम°, तरु°, तृष्णा°, तृष्णा°,
नाना°, पद्मरागमणि°, पर्वत°,
पुष्प°, पुष्प°, प्रफुल्लित°, प्रसारि-

त°, १फल°, भुज°, भू°, मणि°,
मणिविद्रुम°, २मुक्ता°, लवङ्ग°,
विजयकाम...राट°, विद्रुम°, विवि-

ध°, घृत्°, श्वत्°, सुवर्ण°, सुवर्ण-
सुगन्ध°, सूक्ष्म°, हरितपीताम्बु°

*लता(ता-अ)न्तर- विविध°, सूक्ष्म°

*लता(ता-ओ)पथि- रक्षाधुतमय°,
२सुगन्ध°

√लप् अप°, अभि°, आ°, प्र°

*लप- प्र°

*लपन- अप°

*लाप- अप°, अभि°, आ°

लब्धयत्-, लब्धय- लब्धि- नाउ. द्र.

√लभ्, > लभ्, लिप्त् अन्वा°, आ°,
उप°, उपा°, प्र°, विप्र°, सम्°,

a) म्यु. 1 b) वृ. गृ. १३३८। c) म्यु. (१०१८) यनि. संख्यानिर्देशः द. 1 d) म्यु. (१०२०) 'लघु-प-'

इत्यत्र सनि. शोधः द. 1 o) भाष. वा नाप. वा 1 इ) म्यु. 1 = मोदक- 1

समन्वा°समुप°
 लब्ध- ४अ°उप°, एकदेश°, १पु-
 रय°, प्र°, यथा°, वाक्याय°
 *लब्ध-विभव-महो(स-इ)-म्-
 गंगाधर- श्रीमत्कामकटाक्ष°
 *लब्धा(ब्ध-अ)तिशय-संब-
 न्ध- लीनवस्तु°
 *लब्धवत्- ४अ°
 *लब्धव्य- उप°
 *लब्धि- ४अ°, उप°
 लब्ध्वा ४अ°
 *लभ- दुर्°, सु°
 *लभन- आ°
 *लभमान- ४अ°
 *लभ्य अन्वा°, आ°, उप°, समुप°
 लभ्य- गुरुपदेश°, विवेक°
 *लभ्यमान- ४अ°, उप°
 *लभ- उप°, विप्र°, रस्मृति°
 लम्भन- उप°
 लाभ- ४अ°, अमिपूजित°, आत्मन्°
 १इत्°, कर्मातिदू°, जीवन्मुक्त्या-
 दि°तद्°, देशादि° ब्रह्मविज्ञान°,
 भाग°, भोगदेशकाल°, मपयक°,
 यथा°, यदच्छा°, वीर्य°, शुभ्र्या°,
 सुख°, १स्वरूप°, स्वात्मन्°
 *लि(प्स)°प्सा- वेदान्तज्ञान°
 *लिप्सु- स्वकर्मन्°
 *लम्पट- रस°
 √लम्प- अघ°, आ°, प्र°, वि°
 लम्प- अघ°, आ°, पलनकोणाम°,
 सदापाता°न्त°
 लम्पो(म्प-उ)दर- २रह°
 *लम्पन- अघ°, आ°
 *लम्पित-, *लम्पि(न्)वी- वि°
 *लम्प्य अघ°, आ°
 √लल्, > लालि आ°, उद्°
 *ललत्- उद्°
 लल(न्)ना- दक्षि°, श्रिगध°

२ललित(>)सा- ता भा २८°.
 *लालयत्- आ°
 लाल(>)ला- कफ°, ४रह°°
 ललाटे- केसरमृग°°जिन्°, १त्वच्°°
 पाद°°, घृष्टप्रंश°°, शिरस्°°
 *ललाट-विशेष- फालोर्ध्वग°
 {लघ°-
 *२लघे- चित°
 *लघ-क- रूपलावय°
 लघक- आम्न°
 *लघक लता- विद्रुमलता°, शोभा-
 यमान°
 १लघण- कटु°, सार°, तरङ्ग°, मयुर°,
 ६स°
 २लघण- गपू. घृ०२२ द.
 ३लघण-> लावण्य- अतिमुकोमल°,
 अंशेष°, १रूप°, सौन्दर्य°
 + √लप्, > लपित-, लाप-, लापिन्-
 अभि°
 √लस्, > लालस् उद्°, वि°, समुद्°
 *लस- ४अ°
 लसत्- अयुमात्र°, उद्°, जटाभार°,
 वि°, विविधमणि°
 *लसत्-कुण्डल- कनकमय°
 *लसित- अर्धेन्दु°
 *लाल(स)सा- १भोग°
 *लास- उद्°, वि°, समुद्°
 *लह(र)री- परमानन्द°, प्रह्ला-
 रीरत्नान°, १सन्निदानम्°
 √ला("वधा.) आ°
 २ल- एक°, जीव°
 लाक-> लाकि(न्)नी- भूत°
 *लाहु(ह)ल- उद्यत्°, तारव्यजाल°,
 १घृष्टु°
 लाज- मोदक°°
 √लाप्, > लापन- धीवर्ग°, ६स°
 *लान्छित- अर्जुन°, मन्त्र°, १वज्र°
 लाप- √नप् (परि.) द.

लापन-, लापयमान-, लापित-, ला-
 पिन्-, लाप्य √ली (परि.) द.
 √लिख् अभि°, आ°, उद्°, वि°, न्या°,
 सम्°, समा°
 लिखित- दैव°
 लिख्य आ°, वि°, व्या°
 *लेखन- वि°
 *ले(ख)खा- चन्द्र°, सडित°, यामि-
 नीनाथ°, विद्युत्°, १हृद्°, २हृद्°
 √लिङ्ग("वधा.) आ°, समा°
 लिङ्ग- ४अ°, अघत्°, अघ्यवसाय-
 सं...न°, अनुमह°, अघ्यक°,
 आख्यात°°, आत्मन्°, उभय°,
 ऊर्ध्व°, एक°, १घण्टिका°, चतु-
 स्°, १चित्°, चैतन्यशक्त्य°°
 रवर°, जीवमुद्ध्यग्रंश°, ज्योति-
 र्मय°, ज्योतिष्°, ज्वल°, ततद्°,
 तद्°, दिव्य°, दैत्य°, नाद्°,
 परम्°, पश्चिम°, २पुण्य°, पुम्°,
 प्रतिम°, प्रतिमा°, प्राण°, प्रातार्य-
 प्रकाश°, १ब्रह्मन्°, २भव°, भोग-
 माप्रसाध्य°, महत्°, माया°,
 मूलस्वरूप°, विया°, विष्णु°,
 शर्व°, १शिख°, शैव°, १पुति°,
 संकल्पाध्य°...न°, सर्व°, सुवर्ण°,
 रस्मृति°, स्त्री°, स्वहस्ताधिक°,
 स्वामन्°, हिरण्य°
 *लिङ्ग(क)- छटि°
 लिङ्ग-धारण- पशुपति°...क°
 *लिङ्ग-मात्र- विशेष°°
 लिङ्ग-दारी- यरुर्ध्व°...क°,
 २धातना°
 लिङ्गिन्- लिङ्ग°
 *लिङ्गन-, *लिङ्गित- आ°
 *लिङ्गर आ°, समा°
 √लिप्, > लिपि अघ°, अभि°,
 अघ°, आ°, उप°, लिद्°, परि°,
 प्र°, नि°, समा°

a) म्यु. १। b) भावे कर्तार वा इत्। c) साम्प्र. घरा.। d) गपू. (घृ०२२) दवि. गंध्यानिर्देशः ३।

o) म्यु. १ = मंश-। १) म्यु. १ = प्राणपत्रविशेष-, तदाप्योक्तविशेष-।

लिस- अनु°, अव°, आ°, कुद्कुम°,
गन्ध°, गोपीचन्दन°, गोमयादि°,
तल्लिङ्ग°, निर्°
+ लिप्य आ° परि°
+ लिम्पत्- अभि°
+ लेप- ४अ°, २आज्य°, कर्मन्°,
तद्° निर्°, विप्°
+ लेपक- ४अ°, निर्°
+ लेपन- अद्युद्ध°, गन्ध°, मदङ्ग°,
मूलयुद्ध°
+ लेपित- मांसरोषित°, वि°
+ लेप्य- ४अ°

लिप्सा- लिप्यु- √ लम् (परि.) द्र.
√ लिश (बधा.) वि°
लेस- अवर्ण°, अन्यक्त°, कारण्य°,
ध्यान°, पक्षीकृतमहाभूत°, १पु-
र्य°, माया°, माहात्म्य°, विशेष°,
संस्कार°, सद्व्युत्कृष्टाक्ष°

√ लिह् प्रति°
+ लोड- अशित°°
+ लेह्य- अशित°, लाय°, मक्ष्य°°
√ ली, > लापि अनु°, अतुवि°, आ°,
नि°, प्र°, प्रवि°, वि°, सम्°,
समव°, संप्र°

+ ल्ल- ज°
लय- यम् भवि १°. [°य- आ°,
उत्पत्ति°, उदय°, कारण°,
काश°, चित°, तत्त्वम्°, तद्°,
देवता°, नाद°, नि°, प्र°, प्रकृति°,
प्रपञ्च°, १मनस्°, २वासना°,
वि°, शब्दकाल°, संगीत°, सम्°,
सृष्टि°, सृष्टि°, स्वस्वोपाधि°

लयन- नि°
+ लापन- प्रवि°, वि°
+ लापयमान- वि°
+ लापित- प्रवि°
+ लापिन्- वि°
+ लाप्य प्रवि°, वि°

लीन- अन्तर्°, प्र°, प्रकृति°, वि°,
सम्°
लीयमान- वि°

२ली(ल)>ला- अत्यन्तभाव°, अनु-
भव°, आत्मन्°, आवरण°, ओका-
राविभावं°, क दुक°, १काम°, क्रम°
श्रीम्°, जगन्निर्माण°, तत्तद्°,
तत्तल्लोलोपयोगिन्°, तद्°, ताड-
श°, दर्शनस्प... ख°, १दान°, द्वा-
रिका°, नाना°, निकुञ्ज°, १नित्य°,
नित्यानन्द°, प्राहृप्°, १चाल°,
चन्द्रावन°, मजन°, महत्°, महा-
वन°, १मान°, १रमण°, रस°, रस-
रत्न°, रहस्य°, राधारसिक°, रास°,
रासादि°, वन°, वनविहार°,
१वसन्त°, विदार°, वैकुण्ठ°,
२व्रज°, १शारद°, शृङ्गार°, ६स°,
संसिद्ध°, संभोग°, स्व°, स्वघष्टि°

+ लीला- विग्रह- नाना°
+ लीला-स्मरण- संस्थापक°°
√ लुद > लुठन- शिरस्°
√ लुप, > म्, लोखर् अव°, वि°,
विपरि°

+ लुम्बक- वि°
+ लोप- ४अ°, अनित्यकर्मन्°, कर्म-
न्°, जामदव्यवहार°, पात्र°, वि-
परि°, १सर्वकर्मन्°
+ लोखर् > लोखर्-त्व- ४अ°
लोखर्- ४अ°, अति°, तद्रन्ध°,
निर्°
+ लोखर्-त्व- ४अ°

√ लुभ् प्र°
लुब्ध- आमोदगन्ध°
लोभ- अर्थ°, १काम°, किञ्चिद्°,
क्रोध°, जरा°, दर्प°, निन्दा°,
प्र°, मद°, मोह°, राज्यसुख°
लोभा(भ-आ)दि- अशेष°
√ लुलु > लोल- अति°, कालिन्दीक-

ल°, यन्त्र°
लौदय- > + लौल्य-क- धातु°°
+ लृ (<लृ)त्- ४अ°
लृ(त<)>ता- एकादशन्°
लृ(तक<)>तिका- तन्तुपञ्जरमध्यस्थ°
लेखन- लेखा- √ लिख् (परि.) द्र.
√ लोक, > कि अव°, आ°, वि°,
समव°, समा°

लोक- ४अ°, अखिल°, अग्नि°,
अतल°, अत्यानन्दमय°, अधि°,
अनन्त°, अनेक°, अन्तरिक्ष°,
अन्नपान°, भव°, आ°, आत्मन्°,
आदित्य°, इन्द्र°, इह°, क्षत्र्य°,
क्षीण°, गन्धमात्य°, गन्धर्व°,
गीतवादित°, गुण°, गो°, चन्द्र°,
चन्द्रादि°, चिर°, चिरलोक°, जन-
स्°, १जित°, जीव°, तत्तद्°, तद्°,
तद्गत°, तन्मण्डल°, तपस्°,
तलातल°, त्रि°, १देव°, शु°, सौर्°,
५न°, नक्षत्र°, नर°, १नाग°, नितल°
निर्भ्रति°, नृ°, १पर°, पापपुरय°,
पितृ°, २पुरय°, पृथिवी°, प्रजा-
पति°, १भक्षन्°, भुवर्°, १भृ°,
भूत°, भूम्यादि°, भूर°, भूभुवस्व-
र्°, भ्रातृ°, मह°, मनुष्य°, मर्त्य°,
महम्°, महातल°, २मातृ°, १यम°
२रमणानन्द°, रसातल°, १रुद्र°,
२लीला°, १वरुण°, वायु°, वित-
ल°, विष्णु°, वैकुण्ठ°, २व्रज°,
शर्व°, १शिव°, ५स°, सकल°,
सखि°, १सत्य°, सप्तन्° प्रष्ट.

लौकिक- ४अ°, २देव°
+ लोक-पर्यन्त- ब्रह्मादि°
लोक-स्मृत्- स्मृते मैत्रि ६,
३५.५.५.
लोका(क-अ)न्तर- > लोकान्त-
रा(र-आ)दि-
लोकै(क-ए)पगा- दारैपणा°°

a) ध्यान. अया. । b) कल्प° इति तैसं ७, ५, २४, १ । c) मण्. (५०२८) 'लोकान्तरा(रा-आ)दि-' इत्यत्र
पनि. शोषः द्र. ।

+लोकन- भा°
 +लोकयत्- अव°, आ°
 +लोकित- अव°, आ°, समव°
 +लोक्य अव°, आ°, वि°, समव°
 लोक्य- ४अ°

√लोच् आ°, वि°
 लोचन- अधोन्मीलित°, आ°, कञ्°, त्रि°, धूम°, निर्मल°, प्रसन्न°, मस्तक°, ररक्त°, वारिज°, वि°, श्रोत्र°, ख°
 +लोच्य आ°

लोप- √लुप् (परि) इ.
 लोमन्- उङ्°, कक्षोपस्थ°, केश°, केश°
 +लोम- अनु°, प्रति°, वि°
 +लोम(क)- ४अ°

लोलुप- √लुप् (परि) इ.
 लोष्ट- > +लोष्टाष्ट-अ)श्म-काश्चन- १सम°

२लोह- अष्टन्°, त्रि°, पापाण°, गृह्°
 +लोह-शलाका- तप्त°
 २लोह- ३मद्र°

२लोहित-
 +लोहित्य- २यम् भा २२°
 २लोहित- ४अ°, १नील°, मृदु°, वि°, घृ°, स्फटिक°, २हरित°

व

२वंश- किङ्किणी°, तिरथीन°, १ट्ट°, १ट्ट°, मूलार्थच्छिन्न°
 +वंश-खण्ड- मृदु°
 २वंश- इक्ष्वाकु°, १कंस°, गण°, १ए°, २वसिष्ठ°, १स्य°, १सोम°, स्व°

√यक् > यक्त- ४अ°, उम°, श्रुतु°
 +यक्त-यत्- -नाय मउ ३, ११.
 यकुल- = यकुल- गद्.

यक्षस्- पचास्य°, विष्णु°, शिरस्°, १शिव°, श्रीवत्सकौ... द्वित°
 +यक्ष-स्थल- १दक्षिण°
 +यक्षो-रुह- पीनोजत°

√वच्, > वाचि, विवक्ष् अपि°, अनु°, अभि°, अभ्यनु°, निर्°, परिप्र°, प्र°, प्रति°, वि°, सम्°, संप्र°
 उक्त- -क्तः पा१०, २१° [०क्त- अन्° अनु°, अभि°, अभ्यनु°, अष्टादश- न्°, आचार्य°, २एकाक्षर°, ३कल्प° कादिहादिमत°, गुरुशास्त्र°, तथा° तद्°, दुर्°, देशिक°, नानास्मृति° नारद°, निर्°, पितृयाग°, पूर्व°, १बीज°, १°, प्रति°, प्रथममन्त्र°, प्रयागा...र्थ°, ब्रह्मकर्मण°, यथा°, यद्°, विधान°, विधि°, २वेद°, शान्तादिलक्षण°, शास्त्र°, शास्त्र- विधान°, १धृति°, धृतिस्मृति°, संप्र°, मु°, स्फुट°, स्वगुरु°, स्वद- क्ष°, स्वविधि°, स्वाधम°]
 +उक्त-मार्ग- वृन्दावन°

+उक्तवत्- ४प्र°
 उक्ति- आधिकारि...स्य°, देशिक°, धर्म°, १नमस्°, पूज्यपदाथ°, देश- ल°, यथान्यपदिष्ट°, वाक्य°

+उच्य अनु°, प्र°
 +उच्यमान- प्र°
 +ऊचान- अनु°
 वक्तव्य- -व्यः नाय १७६ : ३° [०व- ४अ°, प्र°]

वक्तुम् वि°
 वक्तृ- ४अ°, परमतरवरहस्य°
 वक्त्र- अग्रनासिका°, अष्टन्°, एक°, गज°, गुरु°, चतुर्°, चतुर्थे°, तद्°, त्रि°, दशन्°, दीप्तदुतासा°, द्वि°, नवन्°, नानादेशिक°, नासा°, प- शन्°, पथम°, षाट्°, बापु°, स्व- क्त°, १शिव°, १प°, सान्°, २नी-

म्य°
 +वक्त्र(क)- एक°
 +वक्त्र-नयन- अनेक°
 +वक्त्र-नेत्र- बहु°

+वक्ष्यत्- प्र°
 वचन- ४अ°, आख्यात°, आप्त°, उभय°, चतुचाट्ट°, २छन्दस्°, तद्°, धात्वर्थ°, निर्°, पुष्पित°, प्र°, प्रति°, २वाङ्मण°, मद्°, रसिकानन्द°, वन्याकुमार°, वाहि° २वेद°, व्यास°, १सत्य°

वचस्- दशाहुल°, १पुरुष°, १मन- स्°, यज्ञ°, १सत्य°, स्व°
 वाक- अनु°, शंयोम्°, सूक्त°
 +वाकिन्- ४अ°

वाक्य- अधर्षय°, अनु°, २आदि°, इत्यादि°, एक°, गुरु°, तरवमस्या- दि°, तद्°, दुर्°, प्रज्ञान°, प्रति°, १भवत्°, महत्°, १वर्ष°, २वे- द°, वेदान्त°, शास्त्र°, १धृति°, सत्यादि°
 +वाक्यो(क्य-उ)क्ति- सर्वदेशि- क°

१वाच्- ४अ°, अति°, अहत्°, गति°, २जाति°, जीवेरवे- ति°, तर्कोगम...दि°, १तार°, दुष्ट°, परा°, पाणि°, १पुरुष°, पृथिवी°, १वहन्°, मद्°, १म- नस्°, १मोक्ष°, १यत्°, लक्ष्मी°, शरीर°, १सत्य°, सर्व°, १स्य°, स्व°

+वाक्-काय-मनस्- १यत्°
 +वाक्-काय-मानस- १यत्°
 +वाग्-भक्ति- स्व°
 वाग्-ईश्वर- सर्व°
 वागीश्वरी- धी°
 +वाग-स- -मः इ ५४१ : ३°
 +वाग-मन-गोचर- ४अ°

a) भावे वरखे वा कृ। b) तान्त्रि. भग। c) दु. गद्. इ ५४१ता। d) घन्ता : सं. घना।
 e) भावे कर्तार वा कृ। f) गद्. (इ ५३२) यनि. संख्यानिर्देशः इ.। g) निघा. घना।

*वाग्-विलास- आनम^०
 *वाङ्-मनस-गोचर- ४अ^०
 *वाङ्-मनो(नास्-श्च)गोचर- ४-
 *२वाङ्-मनो-गोचर- ४अ^०
 वाङ्-मय- अखिल^०, सर्व^०
 *वाङ्-मानस- १जित^०
 *वाचा>वाचा(चा-श्चा)रम्मण-
 -णम् छां ६, १, ४-६^०; ४, १-४^०;
 पत्र २^०.
 वाचिक- कायिक^०
 वाचक- अंश^०, अनन्त^०, अभेद^०,
 इत्यादि<तारकब्रह्मन्, निर्धृति^०,
 प्रणवायन्त्र^०, १ब्रह्मन्, १भू,
 वाच्य^०
 *वाचन- शिवपुस्तक^०
 *वाचिन्- अन्वर्थ^०, जगत्, जीव^०
 वाच्य- ४अ^०, अंश^०, अकार^०,
 इत्यादि<इत्यादिवाचक, उकार^०,
 १ओकार^०, १गृहो, तत्पद^०, त्वंप-
 द^०, सिद्ध^०, प्रणवाय<चक^०, म-
 गवच्छब्द^०, मकार^०, मुनिशब्द^०,
 कतुर्वेद^०, सच्छब्द^०, समस्रम्...
 क^०, सर्व^०
 *वाच्य-वस्तु- सर्व^०
 *विच(सि)>क्षा- अत्व^०
 १घञ्ज- इन्द्र^०, कनक^०, द्वादशन्, ध्वज^०
 महत्, रामुजिह्वा^०
 २यज्ञ-नुषड- वज्रनख^०
 *यज्ञ-नाल- मुपुत्रा^०
 *यज्ञ-पक्ष- १वज्रतुरङ्ग^०
 वज्र-बाहु- -हुः मना १, १-१५^०.
 *यज्ञ-संहनन- १रूप^०
 वज्र-सूची->यज्ञसूचि-क->-
 का- केन^०
 वज्र(अ-ई)शव(०)री- कामेश्वरी^०
 √घञ्च्>*वज्रन- १काल^०
 √घट(वधा.)>घट- अनेक^०, एक^०,

कुञ्ज^०, भएडीर^०, भारडीर^०,
 ३वंशी^०, संकेत^०, साधन^०
 घा(टक)>टिका- चाण्डाल^०
 व(०)घटु->घटु-क- गणेश^०
 घटुकै(क-ई)श्वर- १मगवन्^०
 √घण(शब्दे)>वा(णि)>णी- कपो-
 ल^०, १देव^०, परःशतपष्टि^०, १शुक^०
 वंशिज्->वागिज्य- कृपि^०
 १घत्स- १चाल^०, नष्ट^०
 *वत्स-तार(०)री- १वत्स^०
 *वत्स-ल- दीन^०, पितृ^०, २गह्न^०
 *वात्सल्य- २भक्त^०, राख^०
 २-३घत्स- गप्. पृ० ३६ द्र.
 *धवत्स- श्री^०
 वत्सर- द्वादशन्, मघविंशति^०, परि^०,
 शतकीटि^०, परमात्, सम^०
 √घट्, > घादि, वदिष्यामि १कौल
 धा^० [२अच्छा, अति, अनु^०,
 अप^०, अभि^०, आं, उप^०, परि^०,
 प्रति^०, वि, व्यव^०, सम^०]
 २उदित- अभि^०, आ, निखिलनि-
 गम^०, निगम^०, प्र^०, २वेद^०, श्रुति-
 वाक्य, सदा^०
 *उघ- १ब्रह्मन्^०
 *वद- २अच्छा^०
 वदत्- ४अ^०, अभि^०, प^०, वि^०
 वदन- अत्यन्तकीडा... ता, अनेक^०
 आलिगन्तु... लित^०, उग्ररूप^०,
 कराल^०, करालदंष्ट्र^०, मल^०,
 दंष्ट्राकराल^०, नारसिंह^०, प्रसन्न^०,
 मधुप्रसन्न^०, मस्तक^०, संपूर्ण-
 चन्द्र^०, सुपुत्रा^०
 *वदन-द्वार- जिह्वाम... कान्त^०
 *वदना(न-श्च)म्बु-ज- प्रसन्न^०
 *वदना(न-श्च)म्भो-ज- बह्वी^०
 *वदमान- वि^०, सम^०
 *वधा- ४अ^०

वाद्- अति^०, अद्वैत^०, अप^०, अवा-
 च्य^०, जीवेश^०, तद्, नाना^०,
 नैरात्म्य^०, १पर^०, परि^०, पुनर्^०,
 पुरुषार्थ^०, पृथक्^०, २पज्ञा^०, मा-
 या^०, वि^०, वीणा^०, २वेद^०, सप्^०,
 स्वतन्त्र^०
 *वाङ्म- अभि^०, वीणा^०, वेणु^०
 *वादित- गीत^०
 यादित्र- उदात्त^०, महत्^०
 वादिन्, नी- अति^०, अमृत^०, अग्नि-
 य^०, अभि^०, अस्तित्वस्तुल^०, १अ-
 हम्, आगम^०, उप^०, कालैक^०,
 तन्तु^०, १ब्रह्मन्, ६योग^०, १वाच्,
 वादित्र^०, २वेद^०, शब्द^०, शुष्क^०,
 शून्य^०, पद्पदार्थ^०, १सत्, १सत्य^०
 *वाघ अभि^०
 वाघ- प्र^०, १महल^०, महत्, संपीत^०
 *वद्धृश्व^०- सुपुत्र^०
 √वध् वि^०
 वध- अश्व^०, इन्द्रिय^०, गृह^०, गो^०,
 २त्रिपुर^०, धूमलोचन^०, पितृ^०,
 पितृमातृ^०, प्राणिव^०, सुद्धि^०,
 १ब्राह्मण^०, २मातृ^०, सर्वजीव^०
 *वध- ४अ^०
 १व(धु)>धू- २कुल^०, गृह^०, चतुर्मुख^०
 हंस, धवर^०
 √वन्(वधा.), वनाति मउ ९, ५१^०.
 [उप, सम^०]
 वन्- अमृतकल्पतरु^०, अशोक^०, अ-
 सिपत्र^०, आनन्द^०, आनन्दकल्पतरु-
 रु^०, उल्लुक^०, उप^०, कदम्ब^०, ४क-
 ल्प^०, कल्लोल^०, १काम^०, काम्य^०,
 कालज^०, १कुमुद^०, २कृष्ण^०, केत-
 क^०, कौडा^०, खदिर^०, खारडव^०,
 गन्धमादन^०, गृह^०, चतुर्मुखसा-
 म्भोज^०, चतुर्विंशति^०, तपस्^०, १ता-
 ल^०, त्रि^०, २दधि^०, दीप^०, दुग्^०,

a) गप्. (पृ० ३४) यति. संख्यानिर्देशः द्र. । b) गप्. (पृ० ३३) नेव द्र. । c) गप्. (पृ० ३३) √वच्> १वाच्-> पाया इत्यत्र यति. षोषः द्र. । d) *अहस्वः इति मा २६, १० (वृ. टि. वैपश् मत्या.) । e) पा ५, २, ९८ । f) श्रु? । g) तैमा ७, १, १ (एतदुत्त गप्. [पृ० ३७] षोषः द्र.) । h) वैपश् यद. । i) तैमा १०, १०, २ । j) यत्रा. द्र. ।

द्वादशान्, १नन्द्, नन्दीस्वरं,
 १पत्रं, परमानन्दलहरीं, पर्वतं,
 पलाशां, पारिजातकं, प्र०, वकुलं,
 बहुलं, ३शुन्दां, १शुह्वरं, बोधक-
 ल्पतरं, बोधानन्दं, ब्रह्मकल्पतरुं,
 ब्रह्मतेजोम...हं, १प्रह्वरं, ब्रह्म-
 विद्याकल्पतरुं, ३भद्रं, भद्रश्रीं...
 न्दां, भाग्यडीरं, सुज्यं, मधुरां,
 १भनसुं, महत्, मुक्तिकल्पतरुं,
 यज्ञकल्पतरुं, योगकल्पतरुं, रा-
 स०, २लोहं, विभूतिकल्पतरुं,
 धृपभातुं, वैदकल्पतरुं, शुद्धबो-
 ...कारं, शेषशायिनं, शैलं,
 श्यामासुं, श्रीं, संकेतं, स्वार्त्मान-
 न...तरुं
 वन-दुर्गा- तुल्यं, श्रीं
 वन-प्रस्थ- > वानप्रस्थ- ब्रह्म-
 चारिणं
 वन-माला- कौस्तुभं, १शह्रं
 श्यामाहि...धिं, श्रीवत्सं
 *वनमाला(ला-आ)दि-
 १शह्रं
 *वन-माल्य- श्यामाहि...धिं
 वन-लीला- अति
 *वन-विहारिन्- सदा
 वन-स्थ- बहूदकं
 *वनन- समुं
 वनि(त)वा- १देव
 वनस्पति- ओपधिं, लृणं, शृण्वी, १
 शृणुं
 *वंताक- भूतं
 √ वन्द् अमिं
 वन्दन- अमिं, अमिं, २धवणं,
 २संख्यां
 वन्दित- ऊर्वाग्राय...रं, ब्रह्मद-
 दादिं, ब्रह्मादिं, सिद्धं
 वन्द- देवदा...निं, धृवभध्वनं,
 सवं
 √ वप् नि, निद्, पत्
 *वाप- १धीजं

वपुस्- कृशं, नग्दार्कं, १चित्, दि-
 व्यं, नरं, प्रणवोद्गीघं, मुक्तासु-
 क्तं, २स्यामं, २सौम्यं, स्पष्टं,
 स्पष्टास्पष्टं, स्वं
 १-२वर- गप्, ४७३१-द.
 ३-७वर- √ वृ (*वधा.) परि. द्र.
 १-३वरण- गप्, ४७३१-द.
 धवरण- √ वृ (*वधा.) परि. द्र.
 चराह- १आदिं, आधारशक्तिं, कठ-
 वल्लीं, दुष्टकीटं, २मास्यं,
 विष्, श्रीं
 चाराह- नारासिंहं
 वरीयस्- √ वृ (*वधा.) परि. द्र.
 श्वरुण- अर्कं, इन्द्रं, निशाकं,
 १मित्रं, शरुं
 *वृ > व-रोध- -धे अञ्च ११.
 श्वर्ग- अरिं, अष्टन्, चतुरं, जगद्-
 व्यापारं, पञ्चन्, प्राणं, वन्धुं,
 मृत्युं, मातृपि...त्यं, पपं, सर्व-
 द्वियं
 वग्यं- √ वृन् (परि.) द्र.
 √ वक्ष् > वक्षस्- अन्लं, १ब्रह्मन्,
 सुं, १सूर्यं, सूर्यचन्द्राभिं
 *वक्ष- १ब्रह्मन्
 वज्रं- वज्रंन- वज्रम्, वज्रिन्-
 √ वृन् (परि.) द्र.
 √ वर्षणं > णि उप०, निद्, सम्
 १वर्णं- अं, अष्टन्, आकृतिं,
 २कतिं, तत्तद्, तत्त्वं, निं, त्रि-
 शत्, दिं, त्रिं, द्विं, द्विपञ्चिचतुरं,
 पञ्चन्, पञ्चाशत्, मन्त्रं, माला-
 मनुं, मालिकां, १इदं, पत्, १
 सातचत्वारिंशत्, सातविंशतिं,
 स्वरं
 *वर्षणं(क)- अष्टाविंशतिं, च-
 तुर्दशन्, चतुर्विंशतिं, द्वाविं-
 शत्, द्वादशन्, पञ्चन्, पञ्चाविं-
 शतिं, १सं, सातविंशतिं
 *वर्षण-चतुष्टय- रामरुप्यं...यं
 *वर्षण-द्वय- दंयेति

*वर्षण-षट्क- मालामनुं
 *वर्षणं- ४अं, निं
 श्वर्ण- अग्निं, अनेकं, आदित्यं,
 इन्द्रगोपं, इन्द्रनीलं, एकं, एतद्,
 १कपिलं, १कृष्णं, गौरं, १चि-
 त्रं, चित्रादिं, तद्वज्रं, त-
 र्णाकं, १धूमं, नानां, १नीलं,
 पद्मारागं, ३पीतं, बन्धूकपुष्पं,
 भास्करं, भास्वरं, महानीलकण्ठ-
 मन्त्रं, माणिक्यं, २रक्तं, रक्मं,
 ३वरं, विं, वैह्वयं, १शह्रं, शह-
 कुन्देन्दुं, शशिन्, शुद्धसुका-
 फलं, १श्यामं, १श्वेतं, श्रीं,
 सिन्दूरं, सुं, सुधूमं, सुवर्णं,
 स्फटिकं, स्फटिकरजतं, स्वर्णं,
 हंसं, हिरण्यं, हेमन्
 *श्वर्णं(क)- ३पीतं, २रक्तं, १शह्रं
 *वर्षणं-भेद- व्यक्ताव्यक्ता...मुखं
 *वर्षणां(णं-आ)कृति- नानां
 श्वर्णं- ४अं, २कुलं, २कुलं, चतुरं,
 त्रिं, १देवं, ५सं, सर्वं
 *वर्षणं-भोजन- ४अं
 वर्षणां(णं-आ)श्रम- अतिं, स्वं
 वर्षणांश्रमा(म-आ)चार- त्यहं,
 सर्वं
 वर्तं- वर्तकं, वर्तितं, वर्तितुम्, वर्ति-
 न्, वर्थं √ वृत् (परि.) द्र.
 १-२वर्धन- वर्धितं, वर्धिन्, वर्षं
 √ वृत् (परि.) द्र.
 वर्धन्- मृद्
 वर्धन्- √ वृ (*वधा.) परि. द्र.
 श्वर्धन्- अष्टन्, अष्टाचत्वारिंशत्, चतु-
 विंशतिं, चतुश्चत्वारिंशत्, दश-
 न्, दशपदसं, द्वादशन्, षष्टन्,
 नवन्, पत्, सातं, षोडशन्,
 सटसं
 वर्ष-सात- चापन्
 वर्ष-सहस्र- सातन्, दशन्, दिव्यं,
 पदन्
 वर्षण- वर्धिन्- √ वृत् (परि.) द्र.

a) व्युत्पत्त्यर्थः । b) अथ इत्यस्य पूर्वार्थलोपः (तु. गप्, ४५०-८१) । c) विं इति निगद्य ।

+√वस् (अशने), >उपण- , २उपि-
 त- , २उप्य, ३वास- उप°
 √वस् (बधा.), >+उष्टि- वि°
 १वसन्त-
 वसु- -सोः मठ ९, ५९°. [°मु-
 अष्टन्, अस्मद्, १धी>धिया°,
 १नन्द°, १नन्द°, पुनर्, १बृहत्°
 वाजिनी°, विभा°, १विश्व°>धा°,
 १सत्य°]
 वासव- भूत°°
 २वसिष्ठ- गौतम°°, २निदाघ°°
 वसु-देव- उमसेन°
 वासुदेव- अनिरुद्ध°,
 केन°, नारायण°, लक्ष्मी°
 वासुदेवा(व-आ)दि-
 १अङ्ग°
 +वसुदेवा(व-आ)दि- १अ-
 ङ्ग°°
 वसु-ध(र)>रा- प्रकटित°
 +वसु-धत्र- त्रिकोण°
 +वस्वत्- वि°
 २वासन, ना- ४अ°, अनादि°, अना-
 द्यधिया°, अन्तर°, अप°, अभ्या-
 स°, अमल°, असंख्येय°, १इतर°,
 उत्तम°, कर्मसंभूत°, १धन°, वि-
 न्मात्र°, चिरंतनातिसूक्ष्म°, चिरा-
 भ्यस्त°, २जाप्रत्°, जीवपर्याय°,
 तद्°, १तनु°, दुर्, दृढतरु...
 क°, देह°, निर्°, पूर्व°, प्राण-
 स्पन्दन°, वाद्याय°, भक्तिज्ञा...
 न्य°, भेद°, १भोग°, भोगैक°,
 भ्रम°, भैरव्यादि°, यक्षकर्मन्°,
 लोक°, वि°, विगलित°, विषय°,
 शान्त°, शास्त्र°, शुद्ध°, ६स°,
 संसार°, संकल्प°, संतपण°, सर्व°,
 सर्वार्थ°
 +वासन-वहकि- सर्व°

वासना-जाल- कुत्सित... भेन्°,
 तत्तत्कर्मफल°
 वासना-श्रय- एषयाश्रय°
 +वासना-बीज- निर्देग्ध°
 वसथ- √वस् (निवासे) परि. द्र.
 +वसा- विष्°°
 वसित- √वस् (निवासे) परि. द्र.
 वस्तु- ४अ°, अनन्त°, आभास°, उपा-
 जित°, एक°, ज्ञेय°, तद्°, दशि-
 रूप°, देश°, देशकाल°, द्वितीय°,
 नाना°, २नित्यानित्य°, निरञ्जन°,
 पत्र°, १पर°, परम°, परस्पर°, भात°
 १महान्, मुख्य°, यथा°, लीन°,
 वाच्य°, विज्ञात°, ६स°, १सत्°,
 सर्व°, साध्य°, सिद्ध°, मुक्तागत°,
 स्थूलस्...न्त°, स्वयतिरिक्त°
 वास्तव- ४अ°, प्रकृति°
 +वस्तु(-क)-, वस्तु-तस(>): ४अ°
 वस्तु-त्व- ४अ°, अस्ति°
 +वस्तु-पात्र-देहा(ह-आ)दि- इष्ट-
 तम°
 +वस्तु(स्तु-अ)न्तर- देश°°
 √वह् (बधा.), >वाहि अति°, अपि°
 आ°, उद्°, निर्°, परितम्°, प्र°,
 प्रति°, वि°, सम्°
 +उह- अनस्°
 +उह निर्°, परितम्°, प्रति°
 +उह- अपि°, उद्°, प्र°, प्रति°,
 वि°, सम्°
 +वह- महोरात्र°, आ°, उद्°, हुत°
 पवह- आ°
 +वहन- कुटुम्°
 +वहिट- निर्°
 वहि- अन्यारोपित°, अप°, अपान°,
 अर्क°, १चिन्°, उवाला°, दिग्°
 पीठ°, प्रज्वलन्°, १मुखा°, वि-
 वेक्षण°, शकटा°, १सत्य°°

वह्-जवाला- अक्ष°
 वह्-जवाला(ला-आ)वलि>-
 ली- प्रातश्चिन्नादिवर्णसूय°°
 +वह्-ललना- १कृच°
 +वह्-वृद्धि- लघु°
 वाह- अति°, उद्°, गृह°, तार्क्ष्य°,
 प्र°, प्रति>ती°, वारि°, वि°,
 विष्णु°, वृषभ°, १सत्य°, हंस°
 +वाहक- द्वादशानित°, वादित्र-
 ज्ञान°
 वाहन- आ°, कथ्य°, गन्ध°, गृह°,
 प्र°, १वर्ष°, विष्णु°, ६स°, सैन्य-
 बल°, हव्य°
 वाहिन्, नी- अहन्°, जयन्तपुर°,
 पशान्त°, प्राण°, लावण्य°,
 श्वरस°
 +वाह्य आ°, वि°
 √वा, >वापि अनु°, आ°, निर्°,
 परिनिर्°
 वात- १अणु°, अनु°, अस्थि°,
 आकारा°, आधारा°, २काल°,
 दिग्°, नि°, निर्°, निराकर°,
 पुरम्°, प्रति°, विष्°, व्योमन्°,
 शीत°, मर्व°
 +वात-युल- अन्नशूल°°
 +वान-, +वापन- निर्°
 वायु- युः वृ ६, ४, २१९°. [°यु-
 ४अ°, अष्ट°, अग्नि°, अभ्योग्य°,
 अपान°, आकाशा°, इन्द्र°, चतु-
 षपयस...रन्, ६श°, नागादि°, प-
 यन्, पृथिवी°, पृथ्वी°, बाण°,
 प्राणादि°, १मनम्°, १कन्द°,
 महन्°, महन्°, म्यान°, १समा-
 न°, १सोम°°, २१पानी°
 वायव्य- अग्नि°, ६क°°
 +वायु-दशक- एतद्°
 +वायु-अद्- चतुर्दश°

n) ग. (१७४४) यनि. संख्यानिर्देशः द. 1 b) बग. द. 1 c) तीया (०, १०, २ 1 d) बग. द. 1
 =२कृष्ण- , उपनिषद्विशेष- 1 ०) वैश्व यद. 1 f) =स्वाहा 1 g) भावे कर्तारं करणं वा ह्य 1 h) 'ह्य' इति ष्ट ५,
 ७८, ७ (प्र. टि. वैश्व यथा. 1)

यायु-विमोक्षण- ऊर्ध्व°
 वाकिन- √वच् (परि.) द.
 वागु(रं)रा- अन्नपन्थन°, महावीरि°
 वाचन- वाचिन्- √वच् (परि.) द.
 व.ज- २भक्त°
 √वाञ्छ् अभि°, अभिसम्°
 *वाञ्छन- ४अ°, अभि°
 वा(ञ्छ्)ञ्छा- विपयानन्द°, सि-
 द्वि°, स्व°
 वाञ्छित- अभि°
 वात्सल्य- १वत्स- (परि.) द.
 वादन- वादित- वाद्य √वद्(परि.) द.
 वान- √वा (परि.) द.
 वाप- √वप् (परि.) द.
 वापन- √वा (परि.) द.
 वा(पि)पी- नदी°
 वाम- संयत्°
 वाम-> ३ वाम- तद्°, २दक्ष°
 *वाम-कर-युग- कपालोत्पल°
 वामा(म-अ)क्षि-पर्यन्त(न्त)°
 वामा(म-अ)ङ्ग- सीतासंज्ञित°
 वामा-> १वाम-देव- तत्पुरुष°
 २मत्स्य°, ३वसिष्ठ°, ३वसिष्ठ°,
 ३शुक°, शुकदेव°, ३संवर्तक°
 वामान- गप्, पृ०५२ द.
 वामान- २वृष्ण°, १दक्षि°, ३मत्स्य°
 ३वामान- गप्, पृ०५२ द.
 *वामान°- ऐरावत°
 वार-> वाद-धि- संसार°
 वार- शुक°, १सोम°
 वार- एक°, एकविंशति°, चतुर°, त्रि°,
 त्रिचतुर°, दशन्°, द्वि°, द्विनि°,
 पञ्चन्°, सतन्°
 वार- √वृ(आच्छादने) परि. द.
 वारक- √वृ(प्रतिपातने) परि. द.
 वारण-
 वारण- √वृ(प्रतिपातने) परि. द.

वारि- भानन्द°, क्रीट°, ज्ञान्ति°, गोपी-
 चन्दन°, तिल°, १फल° भूरि°,
 १भोग°, वरिगंयुक्त°, विवेक°, ध्रम-
 संजात°, संसार°
 वारित- √वृ (आच्छादने) परि. द.
 वारित- √वृ (प्रतिपातने) परि. द.
 वा(तं)र्ता- अनुमान°, आवरणली-
 ला°, धर्मधर्मत्व°, प्रातिम°,
 १प्रद्वन्°, भिक्षा°, राजन्°, लोह°
 वार्यं, १वार्यं- √वृ (वरणे) परि. द.
 वार्यं- √वृ(प्रतिपातने) परि. द.
 वा(<)राजल- सूत्र°
 वाला(ल-अ)म- वटकणिका°
 वालखिल्य- २वसिष्ठ°
 वालुक-> का- शर्करा°
 वाप- =वाप्य- गप्,
 वास- √वस्(निवासे) परि. द.
 वास- √वस्(आच्छादने) परि. द.
 वास- √वस्(अशने) परि. द.
 वासयत्- √वस्(आच्छादने) परि. द.
 वासर- अतु°, त्रिचतुर°, शुक°, सान्त्°
 *वासा- √वस्(निवासे) परि. द.
 वासुकि- अनन्त°, दैत्य°
 वास्तुक- रचार°
 १-वास्य- गप्, पृ०५३ द.
 वास्य- √वस्(निवासे) परि. द.
 वाहक- वाह्य √वह्(°वधा.) परि. द.
 *विशत्- ऊन°, एक°, त्रयस्°, चतुर°,
 द्वि°, पञ्चन्°, षष्°
 विशति- अष्टन्°, एक°, एकोन°, २पटि-
 का°, चतुर°, त्रयस्°, द्वि°, पञ्चन्°,
 षष्°, सतन्°
 वि-कट- मरजाति°
 वि/कम्प-> *वि-कम्प- ४अ°
 वि-करण- ५कल°, १कल°
 वि-क(ला)-ल- ४अ°, १अत्°
 *विकल्प- १कल्प°

१-विकल्पक- विकल्पना- वि-
 √कल्प (परि.) द.
 वि/कास्-> *वि-कास- पूष्ण°, मा-
 यामात्र°, १संकोच°
 *वि-कासिन्- परब्रह्मन्°
 वि/किन्(शाने)- चिकित्स-> *वि-
 चिकित्सन्- ४अ°
 वि-चिक(त्स)-त्सा- ४अ°, कर्म-
 न्°, निरु°, वृत्त°
 वि-कुण्ठ-> वैकुण्ठ- अनन्त°, १को-
 टि°, तद्°, तुलसी°, १मित्य°,
 परम्°, पादविभूति°, प्रति°, बोधा-
 नन्द°, ब्रह्ममय°, ब्रह्मविद्या°, ब्रह्म-
 विद्यापाद°, वन°, १शिव°, शुद्ध-
 बोधानन्द°
 *वैकुण्ठ-पुर- पादविभूति°, विष्णु-
 कसेन°, धीतुलसी°, सुदर्शन°
 *वैकुण्ठ-प्रासाद-प्राकार-विमाना-
 (न-आ)दि- विरह°
 वैकुण्ठ-स्थान- त्रिपाद्विभूति°
 वि/कृ(करणे)- वि-कार- ४अ°, एत-
 द्°, तद्°, तन्मय°, तन्तु°, तमस्°,
 निरु°, प्रणवमय°, १भाव°, भूत°,
 १मनस्°, सूक्ष्म°, यद्°, पद्मावर्ण°,
 पप्°, ६स°, स्व°, स्वर्ण°, हर्षामर्ष°
 *विकारा(र-अ)न्त- बुद्धुदा-
 दि°
 विकारिन्- निरु°
 वि-कार्यं- ४अ°
 वि-कृति- ४अ°, उद्गुतीर्ण°, प्रकृति°,
 पद्मभाव°
 *वि-क्रिय-या- ४अ°, १धी°
 *वि-कृ(धक)-न्धिक्का'- कांस्य°
 वि/कल्प(<कृ)-कल्प-> वि-क-
 ल्प- ल्पानाम्भा ३२६, [कल्प-
 ४अ°, अष्टन्°, उक्त°, १घन°, ज-
 गद्°, तद्°, देशिक°, निरु°, पूर्व°,

a) गप्, (१०५१) क्षिपयां इत्यत्र यनि. शोधः द.। b) व्यु. ? = दिग्गजविशेष-। c) गप्, (१०५२) यनि. संख्यानिर्देशः द.। d) = विशति-। e) व्यु. ? उत्तरांशः <कट्(अर्थः ?) इति वा प्र. एवेति वा [तु. पा ५, २, २९ (तु. उत्-कट-प्र-कट-सं-कट-)]। f) व्यु. ?। g) ताम्नि. अया.।

प्रमाण^०, १मनस्^०, शब्दाद्य-
ज्ञान^०, ६स^०, संकल्प^०, समुच्चय^०]
+ वि/कल्प-क- निद्र^०, ६स^०
+ २वि/कल्प-क- संकल्पक^०
+ वि/कल्प-जाल- ६स^०
+ विकला(ल्प-श्रं)श- असंस्पृष्ट^०
३वि-कल्पक-
+ वि-कल्प(न>)ना- पृथिवी^०
+ वि/कल्पना(ना-श्रा)दि- घटक-
णि...स^०

वि/क्रम> + वि-क्रम- अमित^०, त्रि^०
निरतिशय^०

वि/क्री> + वि-क्रय- क्रय^०, २दधि^०

+ वि/क्रीह> वि-क्रीह- गोरस^०

+ वि/कृत्> वि-कृव- वि^०

वि/क्षिप> वि-क्षेप- चित्त^०, लय^०
विक्षेप-शाकि- हिरण्यगर्भाधिष्ठित^०
विक्षेपा(प-श्रा)वृत्ति^०-रूपक-

वि/गम्> वि-गत- अवगत^०, सर्वा-
मिलाप^०

वि/गुप्> उगुन्स, विजुगुन्सते ई ङ;
वृ ४, ४, १५५^०

वि/ग्रह> वि-ग्रह- अखण्ड^०, अख-
ण्डविशेष^०, अखण्डानन्द^०, अति-
मेघ^०, अनर्गलप्रवाह^०, अन्वोन्य^०,
अमल^०, आकाशमय^०, आधिदे-
विक^०, आनन्द^०, केवलमन्त्रमय^०
प्य^०, चिद्दानानन्द^०, चिन्मात्र^०,
१ज्ञान^०, तत्तत्पणामण्ड^०...तित^०,
नर^०, नरकेसरिन्^०, पद्धारदरु^०,
परमाकाश^०, शशाणलो^०...रमय^०
पुराकल्पितमन्त्रमय^०...प्य^०, पूर्ण^०,
पूर्णानन्दैक^०, १ब्रह्मन्^०, महा-
नन्दैक^०, १भंगवत्^०, भूमिभूषित^०,
१मत्तल^०, माया^०, मुख्यविज्ञान^०,
२लीला^०, वाचामयो^०...शेष^०, वि-

लास^०, शोभनी^०, शारवतानन्द^०,
१सधिदानन्द^०

विघात- विघातिन्- वि/हृत्
(परि.) ङ.

+ वि/चि> विक- प्रवि^०, वि^०
+ वि/च्य, वेक- वेचय- वेचक-
वेचन- वि^०

वि/चिन्त> १वि-चक्षण- हंसयोग^०,
शत^०

वि/चन्> चारि> वि-चार- ४अ^०,
इत्यादिवाक्य^०, कृत^०, धर्माधर्म^०,
गानादर्शनसिद्धान्त^०, निरयानित्य-
वस्तु^०, निद्र^०, मथ्यनाडी^०, महा-
वाक्य^०, वाक्यार्थ^०, वितर्क^०, वेदा-
न्तवाक्यार्थ^०, वेदान्तार्थ^०, ६स^०,
स्फार^०, स्व^०

वि-चारण, णा- पूर्वापर^०, मित्रामि-
श्रादि^०

वि-चार्य शा ३२३: ३^०

वि-चर्षण- गम् तै १, ४, १५^०

वि/चल> + वि-चलित- हेला^०

वि-चिक्रिसत्- वि/किन् (ज्ञाने)
परि. ङ.

वि-चित्र- अदृष्ट^०, अनेकरत्न^०, कुत्सि-
त^०, नाना^०, मणिकटक^०, विविध^०
वैचित्र्य- कर्मन्^०, जगत्^०, प्रकृति-
कार्य^०, वासनावेग^०, सृष्टि^०
+ विचित्र-भोग- त्रियज्ञपानादि^०
+ विचित्रित- धातुप्रवालनद्वेष^०

वि/चुत्> वि-चृत्व मना १, ४, ५^०

+ वि-चेतन- ४अ^०

वि-चेतस्- जितस्वास्^०

वि/चेष्ट> + वि-चेष्ट(ष्ट)ष्टा-तद्^०
+ वि-चेष्टित- १विरय^०

वि/च्छिद्> वि-च्छिन्न- ४अ^०, ता-
ल्वन्तर^०, प्रसुप्त^०

+ वि-च्छेद्- ४अ^०, गति^०, ग्रन्थि^०
+ वि-च्छेदन- स्वकर्मन्^०

✓चिज्, > + विन- उद्^०, सम्^०
वेग- अना^०, अभ्यु^०, उद्^०, तीम^०,
नदी^०, पद्मदुःखीय^०, २पवन^०,
प्राण^०, १मनस्^०, वायु^०, २वास-
ना^०, विराम्^०, सम्^०, सम्पद्^०

वि/जि> १वि-जय- अनन्त^०, वायु^०
शोतोष्णा...दा^०, सर्व^०

२वि-जय- गप्. वृ ७५७ ङ.

३वि-ज(य>)या- लक्ष्मी^०

+ ४वि-जय^० - ३जयन्त^०

वि-जित- कृताय^०, तपस्^०

+ वि-जिति- १पुरायलोक^०

वि/जुम्भ> वि-जुम्भण- उच्चमा-
व्य^०, गुणदोष^०

+ वि-जुम्भ(न्)> णी- १वाच्^०

वि-जुम्भित- उदात्त^०, स्वान्तर^०

वि/ज्ञा, > जा, ज्ञाणि> वि-ज्ञानन्-
वि-ज्ञात- ४अ^०

वि-ज्ञात्- ४अ^०, अन्नरत्न^०

१वि-ज्ञान- ४अ^०, अद्वयानन्द^०,
अमित^०, अविशेष^०, आत्मन्^०,
आत्मस्वरूप^०, उत्त्व^०, एतद्^०,
गूढ^०, १ज्ञान^०, तत्त्व^०, धर्म^०, पक्^०,
परमार्थैक^०, पारमार्थिक^०, ५शान-
दैक^०, बालमुक्तादि^०, बुद्धि^०,
बुद्धि^०, १ब्रह्मन्^०, ब्रह्मस्वरूप^०,
ब्रह्मार्थैकत्व^०, मति^०, मद्य^०-
गुण्य^०, यद्^०, राममन्त्रार्थ^०, लक्ष-
यात्रय^०, वासनाक्षय^०, विशेष^०, वे-
दान्त^०, व्यक्ताव्यक्तज्ञ^०, शायत्त^०,
शास्त्र^०, ६स^०, १सत्य^०, सदात्म,
कत्व^०, १सह्य^०
विज्ञान-घन- खारमानन्दात्त-
भव^०

अ) गप्. (वृ७५४) यनि. संख्यानिर्देशः ङ. । ब) गप्. (वृ७५४) षावृत्ति इत्यत्र यनि. शोषः ङ. ।
c) 'विचिक्रिसत्ति' इति मा ४०, ६ (तु. टि. वैप१ यस्था.) । d) अज्ञाः सं. अया. । e) 'विचक्षणम्' इति ति १०,
५५१, ५ (तु. टि. वैप१ यस्था.) । f) मा ३२, १३; 'द्वयो क्रम' इति शौ २, १, ५; 'विद्वय' इति तैश्वा १०, १, १६;
J.C. च । g) वैप१ यद. । h) तु. गप्. वृ३२५h ।

विज्ञान-मय- अक्षमय^०
 विज्ञान-पद- ४अ^०
 विज्ञाना(न-श्वा)नन्द- १शिव^०
 +विज्ञानिन्- साक्षात्^०
 वि-ज्ञाप,वि-ज्ञाप ४अ^०
 वि-ज्ञेय- ४अ^०,विज्ञात^०, विराजामु-
 ...स्वरा^०, सु^०
 +वि/ज्वल>वि-ज्वलन्- ४अ^०
 वि(<>वि)डाल- १त्री^०
 विडू(<>दू)र->घेदूर्य- कनक^०,
 १वज्र^०
 वि-त्त(धा)>थ- ४अ^०
 वि/तन्>वि-तान- भावद^०, छत्र^०
 +वितान-मात्र- विचिचिल्लोभ^०
 +वितानित- शशमृद्धिमन्...ल^०
 वि/तर्क>वि-तर्क- निर्^०, ६स^०
 वितल- अतल^०
 वि तृ(ष्णा)>ष्ण- दृष्टानुभवविभ-
 य^०
 वैतल्य- गुण^०, दृष्टभ्रवणविषय^०,
 दृष्टानुभवविभय^०, विषय^०
 √विद्(ज्ञाने),>वेदि,विदिरस, विदुः
 नाप १५१: ८; विषहे मउ ३,
 ५; ६; १-११; १३; १४; १८.
 [अनु^०, आ^०, नि^०, निर्^०, परि^०,
 प्र^०, प्रति^०, विने^०, सम्^०]
 + विस्ति- सम्^०
 १विषया^०
 १विद्- अल्प^०, अहोरात्र^०, आत्म-
 न्^०, २आशा^०, इत्थम्^०, उक्थ^०,
 उतम^०, एवम्^०, २काल^०, काल-
 त्रय^०, कालवेलाविधान^०, कृत्स्न^०,
 गायत्री^०, गुण^०, चित्त^०, १ज्ञान^०,
 तत्त्व^०, तद्^०, १देव^०, देवजन^०,
 १द्वैत^०, नि^०, पद^०, परमाक्षर^०,
 परात्मन्^०, परावर^०, पाद^०, पारा-
 वार^०, पुरा^०, १पुत्र^०, प्राण^०, बहु

१प्रद्वान्^०, प्रद्वविद्या^०, प्रद्वारमन्^०,
 भूत^०, भृगुवद्विरस्^०, भोक्त^०, १मनस्-
 मन्त्र^०, मार्ग^०, मूर्त^०, यज्ञ^०,
 २योग^०, १रूप^०, लोह^०, वयुना^०,
 १वाच्^०, १विज्ञान^०, विरोध^०,
 १विभ^०, २वेद^०, वेदान्त^०, शिव-
 ज्ञान^०, शिवतत्त्व^०, १पङ्क्त^०, ६स^०,
 सकलयोग^०, सम्^०, सर्प^०, सर्व^०,
 सर्वान्तर...प^०, सूक्ष्म^०, स्रष्ट^०,
 छष्टि^०, स्थिति^०, हंस^०
 + १विद्- को^०, द्वि^०
 १विदान- सम्^०
 विदित- ४अ^०, अधर्वन्^०, प्रतियोग^०,
 सम्^०; सु^०
 १विदित्वा श्रे ३. ८; ६, १५. [४अ^०]
 + १विद्य अनु^०, निर्^०
 विद्या- -घाम् अशि ७०^०. [०घा-
 ४अ^०, अथर्वन्^०, अधि^०, अप्यात्म^०,
 अन्य^०, अमृतकलश^०, अष्टन्^०,
 अस्मद्^०, आगस्त्य^०, आचार^०,
 आत्मन्^०, १आदि^०, आधम^०,
 उक्त^०, कर्मन्^०, कादि^०, २कुल^०,
 कृत^०, क्षत्र^०, चतुष्पती^०, चातुशी^०,
 चातुष्पती^०, दिन्तामणि^०, तेजस्^०,
 तेजस्^०, त्रयी^०, त्रि^०, ३त्रिपुरा^०,
 त्रिपुरेश्वरी^०, १देव^०, नक्षत्र^०,
 नन्दि^०, निर्^०, पठितसिद्ध^०, १पर^०,
 पराशिव^०, १पुरुष^०, प्राण^०, प्राप्त^०
 १प्रमन्^०, प्रद्वविद्^०, भूत^०, मन्त्र^०,
 महन्^०, महाविद्येश्वरी^०, माया^०,
 मायादि^०, यथा^०, रसरहस्य^०, रा-
 जन्^०, २सीला^०, वास्तु^०, २वेद^०,
 शाल^०, १शिव^०, शिवतत्त्व^०, श्री^०,
 सकल^०, १सत्^०, २सन्ध्या^०, सर्प-
 देयजन^०, सर्व^०, सर्वोपनिषद्^०, सा-
 दि^०, सिद्ध^०, सु^०, सुरभि^०, सौभाग्य-
 लक्ष्मी^०, २स्पर्श^०, हंस^०, हादि^०]

+ विद्या-जाल- समस्त^०
 विद्या-पर- विस्तर^०, गन्धर्व^०
 + विद्या(द्या-श्च)न्तर- २वेद^०
 विद्वस्- ४अ^०, पर्याद्वैतत्त्व^०, प्र^०,
 शास्त्र^०, स्वाधमो...चार^०
 + विवि(स्त)>रसा- तत्त्व^०
 वेत्त- अप्रिय^०, तद्^०, श्रीराजस्या...
 पद्^०, सर्व^०, सर्वशाल^०, सर्वाय^०
 + वेदक^०- वेद्य^०
 १वेदन- ४अ^०, अहंत्व^०, आत्मन्^०,
 तत्त्व^०, दुराराध्यदेव^०, नि^०, परि-
 पूर्ण^०, प्रातिभ^०, १प्रद्वान्^०, रस-
 तन्मात्र^०, सम्^०, सर्वात्मन्^०, स्वे-
 रिपतत्याग^०
 + वेदनीय- दृष्टादृष्टजन्मन्^०
 वेद्ययन्- + वेद्यया- + वेद्ययावा
 नि^०
 + वेदित- आ^०, गो^०, चिन्मयानन्द^०,
 नि^०, विनि^०, सम्^०
 वेदितव्य- सकृन्^०
 वेदितृ- गोभूमि...त^०
 + १वेदिन्, नी- आत्मन्^०, नि^०, वेदा-
 न्त^०, वेदार्थ^०, संवत्सर^०, संताप^०
 + वेद्य नि^०, विनि^०
 वेद्य- अनुभवैक^०, अमितवेदागत^०, अ-
 शेष्ये...न्त^०, नि^०, महर्षि^०, विद्या^०
 वेदान्त^०, २पङ्क्त^०, सम्^०, सर्व^०,
 सर्ववेदान्त^०, सर्वांगना...शेष^०
 √विद्(लाभे), >न्द् अनु^०, निर्^०, सम्^०
 विक्त-अनु^०, अल्प^०, दार^०, १भग^०,
 शिवायतन^०
 २विस्ति- -चये वृ ६, ४, २०^०.
 [०त्ति- ४अ^०]
 + २विषया ४अ^०
 + २विद्- तपु^०
 + विद्वन्- + १विदान- सम्^०
 + २विद्य अनु^०, निर्^०

a) अथ्याः सं. अथा. 1 b) गपू. (१७६१) यनि. संख्यानिर्देशः द. 1 c) मा ३१, १८ (द्व. टि. वैपश् यस्था.) ।
 d) अथ्याः शै. अथा. 1 e) कर्तोरि कृत् । f) भावे कर्तोरि वा कृत् (गपू. [१७६३] यनि. संख्यानिर्देशः द.) । g) गपू.
 (१७६४) यनि. संख्यानिर्देशः द. 1 h) 'कतवे' इति काठ ३५, १८ (द्व. टि. वैपश् यस्था.) ।

+विद्- +२विन्दु- गो°
 +विष्- निरु°
 +वेद- +२वेदन- निरु°
 वेदस- -दः शिता २, २७५°
 [°स- १विरव°]
 +वेदस- सर्व°

√विद्(सातायाम्) > विद्यमान- ४अ°

+√विद्(सीडायाम्) > ३विद्- प्रति°

√विद्(°बधा.) > २विद्- -

२वेद- -नात् जाग २२°. [°द- ४अ°, अथर्वण°, अथर्वन्°, अधी- त°, आयुर्वण°, आयुर्व°, अथर्व- ...र्वण°, ऋचु°, कर्मन्°, गान्ध- र्व°, गो°, चतुर्°, त्रि°, १देव°, धनुम्°, ५न°, प्रति°, १मन्त्र°, यजुष्°, वास्तु°, सर्व°, सांज्ञोपा- ङ्ग°, सामन्°, स्वर°, खंल°]
 वैदिक- ४अ°, लौकिक°
 +वैदिक-कल्प- १मूल°

+वेद-नायग्री-पादचतुष्टय-

व्याहृतिशि...त°

+वेद-सप्त- सर्व°

वेद-रहसिक->की°

वेद-विद्- ४अ°, सनकादिमहा-

योगिन्°

वेद-वेदान्त- अशेष°, समस्त°, सर्व°

वेद-व्यास- धी°

+वेद-मत- चर्चा- सर्व°

वेद-शास्त्र- सकल°

+वेद-शास्त्र(स-द)विहास-पुरा-

ण- समस्त°

वेदा(द-अ)ङ्ग- अहण°

१वेदा(द-अ)ष्टा- स्थिरादि°

वेदा(द-अ)न्त- अमित°, जन°

२वेद°, सकल°, सर्व°

वेदान्त-श्रवणा(श-आ)दि-

पुरुषप्रयत्नसाध्य°

+वेदा(द-अ)र्थ-वेदिन्- सर्व°

+वेदा(द-अ)विरुद्- विधिबद्-

गुरुपदिष्ट°

२वेदिन्-

+२वेदस- जात°

१विद्- √विद्(शाने) परि. द.

२विद्- √विद्(लाभे) परि. द.

३विद्- √विद्(शाने) परि. द.

विद्वत्- √विद्(लाभे) परि. द.

वि/वह > +वि-दाहिन- कडु°

१-२विदान- गृ, पृ ७६७ द.

३विदान- √विद्(लाभे) परि. द.

वि-दिग् > +विदिक्-कोण- अष्टारच-

क्रायन्त°

+वि-दूर- ४अ°, अति°, ३कल्प°

वि/दृ > +वि-दारिद्र- वैरिन्°

२विदेह- कारी°

विदेह-सुक- जीवन्मुक्त°

१विद्य √विद्(शाने)-परि. द.

२विद्य √विद्(लाभे) परि. द.

वि/घृत् > वि-घृन्- खरोत°, २घन°, चम्पक°, दीपज्वाला°, महा-

न्धकार°

+वि-घृत्- सकृत्°

+वि-घ्रोत- औंकाराभ°, गुरीयोका-

राभ°

वि/घ्रु > +वि-द्वावि(न) > जी- सर्व°

विडुम- कुञ्ज°, मणि°

+वैडुम- स्वर्ण°

विडुम-रुता- दोला°, शतकुञ्ज°

वि/द्विप् > २वि-द्वैपण- १मारण°

√वि(, <व्य)घ्(°बधा.) अति°, अडु°, जप°

विद्- ४अ°, अष°, अस्मीतिशब्द°, द्विग°, १राप°, शब्द°

वेध- महत्°

+वेध(न)वी- पञ्ज°

वि/घा > वि-घ, घा- अनु°, अष्टन्°, उभय°, एक°, एतद्°, एवम्°, २कति°, कौटम्°, चतुर्°, चतुर्द-

शन्°, चारक°, तथा°, तेजोमण्ड-

ल°, प्रयोदशन्°, त्रि°, दशान्°, द्वि°, नाना°, पद्यन्°, १पुरुष°, पृथक्°, गृह°, वि°, पद्°, सतन्°, सर्व°

वि-धान- ४अ°, अर्चन°, ऋचु°, कालवेला°, देशिकोक्त°, पितृयागो-

क्त°, पूजा°, पूर्वोत्तर°, १मन्त्र°, यथा°, योग°, शास्त्र°, स्वधोक्त°

+वि-धायक- आशापाश°

वि-धि- ४अ°, अनुष्ठान°, अभ्यास°

अर्चा°, अशक्त्योपदेश°, आच- मन°, आहुति°, १उपासन°, ऊर्ध्व-

पुरङ्ग°, कर्मयोग°, कल्पोक्त°, गुरु- पूजा°, तद्, त्रिपुरङ्ग°, पञ्चतत्त्व°, पुरश्चरण°, पुरश्चर्या°, पूजा°, भस्मस्नान°, भेद°, मन्त्राष्टति°, मोक्षसाधनोपदेश°, यथा°, १यथो-

क्त°, याग°, २योग°, योगाभ्यास°

रुद्राक्षधारण°, विष्णु°, वेदोक्त°, शब्द°, संव्यास°, सहकार्यन्तर°, साक्षात्, सेवा°, स्व°, स्वाधमोक्त°

विधि-निषेध- अशेष°, भगवद-

नन्तविमृति°, विधृत°, वेदोक्त°

+विधि-पूर्वक- ४अ°

वि-धेय- पितृमार्त्

वि-हित- ४अ°, अथर्वन्°, २कालि- का°, तत्तद्देह°, धर्म°, २वेद°, वेदतत्त्वार्थ°, शास्त्र°, स्वाधम°

विहित-कर्मन्- १नित्य°

विधारण- वि/घ्र (परि.) द.

विधु- अर्क°

+वि-धुर- पक्षवि...द°

+वैधुय- कल्पज्ञेया°

वि/ध्रु > वि-धृत- अवकार°

d) गृ, (१७६५)

संख्याननिर्देशः द. 1) b) ऋ १, १९, १। c) अघ्याः शै. श्रया.। d) गृ, (१७६५)

a) गृ, (१७६५) यति. संख्याननिर्देशः द. 1) b) ऋ १, १९, १। c) अघ्याः शै. श्रया.। d) गृ, (१७६५)

'वेद-रह(सक) > विकी' इत्यत्र यति. शोधः द. 1) e) गृ, (१७६५) यति. संख्याननिर्देशः द. 1) f) घा. अर्थः ? = वेधप-।

वि/धृ > धारि > वि-धर्तृ- -तारम्
मउ ९, ५५.

+वि-धारण- छदि°, प्रच्छर्दन°

वि/ध्वंस > वि-ध्वंसन- उधोग°,
डाकिनी°

वि-ध्वस्त- १विज्ञान°

वि/नश(अदर्शने) > वि-नश्यत्-
४अ°

वि-नाश- ४अ°, अरलेप°, उत्पत्ति°,
कंसवंश°, कुञ्जिरोग°, जन्मन्°,
जरा°, दोष°, विपयवासना°,
संसार°, सर्ववर्°, सर्वपाप°, सर्व-
भूत°, सर्वरोग°, स्व°, हृदयस्थि-
...प्रन्थि°

+वि-नाशन- आवरण°, धातुगत-
दोष°, महारोग°, वातनाडी...
ग°, विपरोग°, सकलविष°, सर्व-
दुःख°, सर्वोपाय°, सुख°
वि-नाशिन, नी- छण°, जन्मन्°,
भवबन्ध°, विप्र°, महाभय°, व्या-
धि°, सर्वव्याधि°

विना ४अ°

+वि-नि/ग्रह > विनि-ग्रह- आत्मन्°

+वि-नि/मे > विनि-मय- किंचिद्°

वि-नि/युज > विनि-योग- सायु-
ज्य°, स्ववाञ्छा°

वि-निर/गम् > विनिर-गत- यव-
मात्र°

+वि-निर-गम- सर्प°

वि-निर/षी(<नी) > +विनिर-
णय- कार्याहार्य°

+वि-निर/मा(माने) > विनिर-मित-
शुणत्रय°, महाशिल्पिन°, माता-
पितृ°, वास्तुविद्या°, संकल्पैक°

वि-निर/मुञ्च > विनिर-मुक्क- अ-
खिलोपाधि°, उपाधि°, एतद्-
भाव°, कारागार°, काराश्रम°,
गुह्यादि°, चित्तवृत्ति°, जन्मब-
न्ध°, जरा°, आमभिद्रा°, जाज्य°,

जाज्यभाव°, ज्ञानयोग°, पयदोष°,
पक्षपात°, १पाप°, बन्धयोग°,
माद्यकर्मन्°, भावाभाव°, भावा-
भावकला°, भूयोऽगमन्°, भेद-
बन्ध°, माया°, १मायोपाधि°, लो-
भमोह°, शोकमोह°, धमदाह°, प-
दकोरा°, १सर्वमन्°, सर्वक्लेश°,
सर्वदोष°, सर्वपाप°, सर्वरोग°, स-
र्वावस्था°, सर्वपणा°, सर्वोपाधि°

वि-नि/धृत् > विनि-धृत्- सतस्रुप°

विनि-धृत्ति- ४अ°, प्रधान°

+वि-नि(स्) > श्-चल- १नित्य°

वि-नि(स्) > श्-चि(ज्ञाने) > वि-
निश्-चय- आत्मन्°

वि/नो > वि-नय- विद्या°

वि-नायक- अष्टन्°, २माधव°°

वि/नुद् > वि-नोद- १काम°°

क्रोडा°, वेणुनाद°, श्रीराधारसि-
कानन्द°, हास्य°

+वि-नोदन- १निदाय°

+वि-नोदिन्- १श्रारारस°

विन्द- √विद्(लाभे) परि. द्र.

१विन्दु- =विन्दु- (परि.)

२विन्दु- √विद्(लाभे) परि. द्र.

विन्ध्य- महत्°

वि-न्या(नि/अ)स्(क्षेपणे) > विन्-
(नि-अ)स्त- भूमि°, रूपक°

विन्या(नि-आ)स- उताम°, भूमिका-
द्वय°

वि-पक्ष- पक्ष°

+वि/पञ्च > वि-पाक- क्लेश°,
तद्°

वि/पद् > +वि-पत्ति- १दृष्ट°, प्राण°

वि-परी [रि/इ(गती)] > विपरी-
(रि-इ)त्- तद्°, संशय°

+विपरीत-भ्रम- अनादिसंसार°

विपर्य(रि-अ)य- ४अ°, तद्°, विपु-
शादि°, वैशुण्य°, निर्देश°, प्रमा-
ण°, १बन्ध°, शक्ति°

वि-पर्य(रि/अ)स्(क्षेपणे) > विपर्य-
(रि-आ)स- तद्°, देहामत्त्व°

विपश्चित्- ४अ°

+वि/पा(पाने) > वि-पीत- गर्दभी°

वि/पुल्ल > वि-पुल्ल- > विपुल्ल-रु-
प्र- शेषायुतकृष्णामाल°

विप्र- १देव°, ५न°

+वि-प्र/कृष् > विप्र-कृष्ट- सूदन°°

वि-प्रति/पद् > +विप्रति-पत्ति- वा-
दिन्°

+विप्रति-पक्ष- २श्रुति°

वि-प्र/लभ् > लभ् > विप्र-लभ-
निद्रासंभावित°

+वि/ल्लु > वि-ल्लव- ४अ°

वि-फल- किंचित्तो...प्र°

वि/भज् > वि-भक्त- ४अ°

वि-भक्ति- आख्यात°°

वि-भाग- ४अ°, अंशत...भेद°,
श्रग्भेदादि°, कारणकार्य°, गुणः
कर्मन्°, दिवाराधि°, निरु°, बन्ध-
मोक्ष°, भूत°, भूतविकार°, मन्त्र°,
मूलमन्त्र°, रहस्योपनिषद्°, संव-
त्सारादिकाल°, सालोक्यादि°

+विभागै(ग-ए)क- देहदेहिन्°

वि/भा > वि-भात- ४अ°, सकृत्°,
सु°

+विभागङ्क- > विभागङ्क-मुनि-
गुह°

विभाषिनी- वि/भू(बधा.) परि. द्र.

वि/भिद् > भेदि > वि-भेद- ४अ°,
तेजोरस°

+वि-भेदक- गुणत्रयस...व°, प्रन्थि-
त्रय°

+वि-भेदन- प्रन्थियत्रय°

वि/भी > भीवि > वि-भीषण-
सुप्रीव°

वि/भू(बधा.) > भाधि > वि-भव-
अनन्त°, हृष्ट°, नाना°, परम°,
स्वानन्दमयानन्ताचिन्त्य°

a) तैश्चा १०, १०, २ । b) भवे कर्तरी वा कृत् । c) व्युः ? ।

वैभवं- कोटिसूर्यप्रकारा°
 वि-भाव- नन्म भा ३२°.
 वि-भावित- ४अ°, प्रद्वेन्द्रहादि°,
 यावकरस°, सर्वांगमानार्था°
 *वि-भावि(न्>)नी- अरिष्टकारि-
 णी°
 वि-भु- एक°, सर्व°
 वि-भूति- अणिमादि°, अनन्त°,
 अनन्तचिद्विलास°, आत्मन्°,
 आनन्द°, विपाद्°, दग्धकापाद्°,
 निरतिशयान...रम°, निर्मल°,
 परम°, परमतत्त्व°, परमानन्द°,
 पाद्°, १मज्ञानन्द°, महत्°, वि-
 या°, विलास°, विविधविधि°
 लास°, शिवमहत्...स्त°, शुद्धयो-
 धानन्द°, सकल°
 *विभूति-पुरुर- आत्मसमा-
 नानन्द°
 *विभूति-विशेष- अद्भुतान-
 :दारचर्य°
 वि/भूप>वि-भूषण- १अद्°, ग-
 न्ब°°, सुफाहार°
 वि-भूषित- अमर°, अर्धचन्द्र°,
 अष्टाक्षरीपद्म°, आनन्दवन°, गुञ्जा-
 हार°, चक्रको...ज्ज°, धृष्यष्टक°,
 पञ्चाण्डक°, पुष्पाश्रम°, सुकाम-
 शि°, मेखलावि°, हेमरज°
 *वि/अंश>वि-अष्ट- उभय°
 वि/अम्>वि-अम- कौतुक°, चित्त°
 चित्तादि°, जराभरण°, नाना°, मा-
 याभासत्, श्रुतिस्मृति°, संसृति°,
 सु°, रस्मृति°
 वि-अन्ध- अनेकचित्त°, कर्मर°
 *वि-अन्धित- जीव°
 वि/मन्ध°
 वि-मल- अति°
 वि/मा(माने)>वि-मान- अखण्ड-
 बोध°, अनन्त°, अनन्तशुद्धबोध°,
 अनन्तानन्द°, आमन्द°, आनन्द°

शु...स°, दिव्य°, अज्ज°, परमा-
 नन्द°, प्रणव°, प्राकार°, बोधा-
 नन्द°, प्रदानन्दमय°, महत्°,
 महारण°, शुद्धबोध°, सुदानन्द°
 *विमान-च्छय-पवन- दिव्य°
 विमाना(न-श्चा)दि- वैकुण्ठ°°
 विमाना(न-श्चा)वलि- अन्नन्त°
 +वि-नित- प्रभु°
 +वि-मुख- मङ्गलि°
 वि/मुक्ष>मोक्ष>वि-मुक्त, का-
 ४अ°, कायिकादि°, कालत्रय°,
 जीपत्°, देशकाल°, द्वैतभाव°, नाम-
 रूप°, नास्तिनास्ति°, १नित्य°,
 रागद्वेष°
 वि-मुक्ति- दुःख°, मन्दबुद्धि°, संसार°
 *वि-मोक्ष- जाड्य°
 वि-मोक्ष- ४अ°, १पुरुष°, प्रतिपु-
 रूप°
 *विमोक्षा(क्ष-अ)न्त- जाप्रदा-
 दि°
 *वि-मोक्षण- पशुपारा°, वायु°,
 शरी°
 *वि-मोचक- पशुपाश°
 *वि-मोचन- भवबन्ध°, नर्मप्राण°
 संसार°, सर्वदुःख°
 वि/मुह>मोहि>वि-मूढ- अहं-
 कार°, इन्द्रियार्थ°, सर्वज्ञान°
 *वि-मोहित- १अज्ञान°
 वि-मोहि(न्>)नी- भोगतृष्णा°
 वि/मृग>गि>वि-मृग- अनन्तो-
 पनियद्°
 वि/मृद्>वि-मर्द- गुणवैषम्य°
 *वि-मर्दन- पुरयपाप°
 वि/मृश>+वि-मर्श- -शं:भा२९°.
 वि-यत्->+वियद्-विन्दु-नाद-
 अन्त्याइष्टीरा°
 वि/युज>वि-युक्त- कामकोध°,
 तद्°, प्राणायाम°, रागद्वेष°
 वि-योग- १इतर°, १इष्ट°, ज्ञाहिकि°

त्याग°, दुःखसंयोग°, स्वष्टवन्तु°
 वि/रञ्ज>वि-रक्त- ४अ°, अति°,
 तत्तत्पद्°, धर्मोपम°
 वि-राग- १राग°
 वैराग्य- ४अ°, अत्यन्तपक्°,
 अन्तर्°, अभ्यास°, भौदार्य°, क-
 र्मन्°, गमन°, १ज्ञान°, तद्°,
 तितिक्षा°, १इद°, धर्म°, ध्या-
 न°, २महि°, विवेक°, शास्त्रस-
 ज्ञानसंपर्क°, शोक°, सर्व°, स्वी-
 कृत°
 *वैराग्य-प्रल- उत्पन्न°
 *वैराग्या(ग्य-अ)भ्यास-यो-
 ग- शास्त्रसज्जनसंपर्क°
 वि/रम्>+वि-रत- ४अ°
 वि-रति- अर्थ°
 *वि-रम- समाधि°
 *वि-रस- शुक°
 वि/रह>वि-रहित- आख्यायिका°
 श्रदा°
 वि/राज>वि-राज- अण्ड°, दीर्घ°
 महत्°, स्थूल°, स्वराज°
 वैराज- वैरूप°
 विराट्-पुरुष- अण्ड°, १आदि°
 *विराट्-स्वरूप- अण्ड°, १आ-
 दि°, सर्वकारणमूल°
 वि-राजमान- तिर्यक्त्रिपुराङ्गुला°
 वि-राजित, ता- तत्कार्तल...य°,
 इन्द्रिणादि...लि°, नानाविधस्व-
 लंकार°, पर्वप्रस्थि°, महाचीनपुत्र°
 ...द्रा°, रत्नप्रेक्षि°, श्वभाङ्कति°
 वि/रिच>वि-रिचन- अज्ञ°
 विरिञ्चि- २वसिष्ठ°
 वि/रुध>वि-रुध- ४अ°, अत्यन्त°,
 धर्म°, परस्पर°
 वि-रोध- ४अ°, अद्वैतप्रति°, अन-
 न्त°, कर्मकर्तृ°, ३कल्पना°, गम-
 न°, गुणश्रुति°, त्रिविध°, निर्ण-
 यान्दिधुति°, प्रमाण°, २योग°, २

a) तान्त्रि. श्रपा. 1) b) गपू. (दृ७७५) वि/मप इत्यत्र मनि. शोधः द. 1 c) भावे कर्तारि वा कृत् ।

१धृति° धृतिन्याय°, समस्तस्व-
रूप°, साका...द°
वि-नोधिन्- धर्म°
वि/रुह् > वि-रुह- रु°
वि-रूप- > विरूपा(प-अच्) > क्षी-
चन्द्रधरा°
वि-लक्ष्ण- ४अ°, तद्°, तदुभय°,
द्वैताद्वैत°, परस्पर°, भास्य°, सद्-
सत्°, सर्व°
वि/लह् > वि-लह- गुल्वाक्य°
वि/लस, > लासि > वि-लसद्- अ-
खरडान...र्गत°, मुद्रापु...य°
वि-लस- क्षणशून्या...या°, खेद°
१चित्°, चिद्रूप°, जगत्°, नाना-
लीलाविग्रह°, निरतिशयविक्रम°,
परम°, परमकल्याण°, १मनस्°,
महाभाषा°, योगभाषा°, रसिका-
नन्द°, १वाच्°, विलस°, विवि-
धवि...या°, शुद्धि...क्षन्°,
६स°
+विलास-यत्- अति°
+विलास-विभूति-विशेष- अ-
नन्तपरम°
+विलास-विग्रह- अधिष्ठानवि
...क्षन्°
+विलास-विशेष- परम°, परम-
मूर्ति...त्त्व°
+विलासिद्-
+वि-कासित- नानालीला...स°
+२वि-कासिन्, नी- गतिरति°, ध्ये-
यत्याग°
वि/लिख् > वि-लेखन- प्रचारण°
वि/लिप् > वि-लिस-धीचन्दन°
वि/सी, > लापि > वि-लप- अहं-
कार°, उपाधि°, दरय°, नि-
शेष°, मुदि°, मनोहंकार°, भाषा-
तत्त्वार्थ°, २शारणा°, विविधसरा-
रदप्रारंभ°, शरदप्रारंभ°
वि-स्वप्न- भात्मन्°

वि-लीन- अन्तर्लक्ष्य°, सकल°
वि/लुप् > लुम्प > वि-लुम्पक- अ-
स्मद्बहु°
वि/लोक > वि-लोकन- बन्धा-
यास°
वि-लोम- अनुलोम°
विवक्षा- √वच् (परि.) द्र.
वि/वद् > वि-वाद- ४अ°, कर्मन्°
वि-चरा- ४अ°
वैवद्य- १आशा°
+विवशी/कृ(करणे) > विवशी-
कृत- २वासना°
+विवशी/भू > विवशी-भूत- >
विवशीभूत-रक्षो(स्-अ)धिना-
थ- दम्भोलिल...रण°
वि/वस् > (बधा.) > वि-वस्वत्-
धातु°
वि/वह्(बधा.) > +वि-वाह- धी-
गौतम°
वि/विच् > वि-विक- अति°
वि-वेक- ४अ°, आत्मज्ञान°, आत्म-
न्°, आत्मानात्मन्°, जात°, २दे-
हात्मने°, नवचक्र°, २नित्यानिःय°,
प्राप्त°, मन्थ°, विधिनिषेध°, रव°
विशेकिन्- ४अ°
+वि-वेक्य- पृथक्°
+वि-वेचन- अन्तःपदार्थ°
विचित्रसा- √विद् (ज्ञाने)परि. द्र.
वि-विध- अष्ट°°, उत्सित°°, खाद्य-
ने...ह्य°
+विविध-भूषा- विद्युत्°
+विविध-विधिप्रा(त्र-अ)नेक-शु-
भा(भ-अ)शुभ-प्रारब्ध-कर्मन्-
तापहृद्विहित°
+विविध-वद्-रस- २शाक°
+विविधा(ध-प्रा)कल्प- सुपुत्रा-
दार्त्°
वि/वृ > (बधा.) > वि-वर- वपाल-
तद्°, दार°, १परा°, राजदन्ता-

वलम्बिनी°, शङ्खिनी°
+वि-वर्ण- महावाक्य°
वि/वृज्, > वजि > +वि-वर्जन-
कालत्रय°, तापत्रय°, सर्वकार्य°
+वि-वर्जित- अणुमात्र°, अन्वचि-
न्ता°, आत्माना...भेद°, इहा-
मुत्र°, उत्पत्ति...ज्ञान°, एकाम्-
त्व°, कलाकाष्ठ°, १काम°, काम-
राग°, कालत्रय°, गत्यादि°, गम-
नादि°, गुण°, चतुर्धाश°, जन्तु°,
तद्°, तुरीयादि°, द्वैताद्वैत°, नाम-
रूप°, नास्तित्वादि°, पद्मकोरा°,
परवाद°, परापर°, परामर्श°, १पा-
प°, २पार°, पुण्यपाप°, पुनर्जन्मन्-
पूज्यपूजा°, प्राणकोशा°, बन्धमो-
क्ष°, भूयोजन्माब्जुर°, मुक्तामुक्त°,
रसबुद्धि°, रेचपूर°, लक्ष्यादि°,
लाभालाभ°, वर्णाश्रम°, विदा-
तीयविशेष°, विज्ञानादि°, १विध°,
व्यवहार°, शब्द°, शब्दविद्वद्,
शक्रेति°, शक्रेतावहिवालुका°, शु-
भाशुभ°, शूर्याश्रय°, संकल्प°,
सत्त°, सर्वचिन्ता°, सर्ववेष्टा°, सर्व-
दोष°, सर्वध्यान°, सर्ववाच्य°, सर्व-
श्रुति°, सर्वसत्त°, सर्वसंज्ञा°, सर्व-
सिद्धि°, सर्वाभास°, सर्वसर्व°,
सर्वेश्वर्य°, सविकल्प°, सूक्ष्मदेह°,
स्वयंभाव°
वि/वृत् > +वि-वर्त्त- १वित्°,
तद्°
वि/वृध् > +वि-वर्धन- आयुःप्रज्ञा°
आयुःसत्त्व...ति°, देहानल°,
बलारोग्य°, शरीरारामि°, जाठ-
रामि°
+वि-वर्धिन्- जाठरामि°
वि-वृद्धि- आत्मन्°, १वला°
√विश, > वेति शानु°, अनुग्रह°, अन्वा°
अभिति°, अभिसम्°, भा°, उडु-
त्य°, उप°, उपा°, उपोप°, नि°.

३) गृह (१७७९) यनि. संख्यानिर्देशः द्र. १। १०७७९ कर्त्तरि वा इत् ।

परिधि°, प्र°, प्रा°, वि°, विनि°,
 संनि°, सम्°, समनुप्र°, समा°,
 समुप°, संप्र°
विश्व- उप°, प्र°
 +विश्वमान(न)ना-नि°
 +विश्व अनुप्र°, आ°, उप°, नि°,
 प्र°, समुप°, संप्र°
विष्ट- अनुप्र°, आ°, उप°, उपा°,
 नि°, प्र°, शिषि°, संनि°, सम्°,
 समनुप्र°, समा°
 +विश्व-अभिनि°, आ°, प्र°, प्रति°,
 संनि°, संप्र°
 +विश्व(न)नी-, +विश्वयत्- नि°
 +विश्वया- प्र°
 +विश्वयिस्त्वा उप°, नि°, प्र°
 +विश्वित- आ°, नि°, विनि°
 +विश्व आ°, नि°, संनि°, समा°
 +विश्वुश्च- प्र°
 +विश्व-उदुश्च°
विश्व->विश्वाम् +विश्वार्-पति-
 भुवनाधिपति°
विश्व- १वक्रण°
 वैश्व- १वक्रण°, १वक्रण°
वि/श्व > विश्व-निर्°
 +वि-शक्ति- ४अ°
विश्व- स्तोत्र°
विश्व(ख) > श्व- २खलित°
 +विश्व(ख)श्व(दि-श्र)नेक-
 सखी- १कुञ्जान्तर°
विश्वारद- १वक्रण°, युद्ध°, २योग°,
 सर्वराष्ट्र°
विश्वारथ- निर्विचार°
विश्वाल, ला- अश्वभिति°, अयुतायु-
 ...न°, तमत्°, १दीप्त°, रजम्°,
 सत्व°
वि/शिष्य > शेषि > विश्व- ४अ°,
 आकृति°, ओधप्रयनामन्°, करच-
 रणादिमूर्ति°, नवनाथनामन्°, सुख°

वि-शेष- ४अ°, अक्षरएडचि...न्द°,
 अक्षरएडतेशोमएडल°, अक्षरएड-
 परमानन्द°, अक्षरएडानन्दाधृ-
 त°, अष्टष्टाधु...न्त°, अधिका-
 र°, अधिष्ठान°, अनन्तपरमा...
 ष्टि°; अनन्तपोधसौध° प्रभृ.
 वैशेष्य- ४अ°, अवस्थिति°
 +विशेष-भूत-पर्यन्त- महदा-
 दि°
 +विशेषो(प-श्र)त- अशेष°
वि-शेषण- अनन्तमहामाया°, सा-
 मान्य°
वि-शेषित- अनन्तमहा...ण°, स-
 जातीयविशेष°
वि/शुष्क > विश्व- ४अ°, गुरु-
 भक्ति°, १नित्य°, १फल°, भस्म-
 स्नान°, सु°
 विश्व- ४अ°, आत्मन्°, सर्व-
 पाप°
 +वि-शोधिन्- सर्वपाप°
 +वि-शून्य- ईयन्मात्र°
वि/श्रम् > विश्वान्त- ४अ°, ताप-
 साश्रम°, श्रम°
वि-श्रान्ति- अनुत्तम°, १दुर्भ°, निरं-
 श्वाधान°
वि/दिलिप > विश्व- १पुत्र°
विश्व-द्व सं २, १, १०९°; शा-
 ३२३: ३; -श्वा मउ ९, ४९°;
 -द्वानि मउ ९, ४९°, [४९-
 ४अ°, अखिल°, अनुष्णयु°,
 २जापत्°, तुरीय°, तैजस°, २प्रा-
 ष्ठ°, १विश्व°, सर्वे°, सुषुम्°, स्वप्न°
 +विश्व-जन- सर्वजन°
विश्व-देव > वैश्वदेव°- ४अ°,
 बलि°
 विश्व-रूप- मद्°, श्रीरामता...
 ह्वन्°
वि(श्व)शानर > वैश्वानर- २:

मउ ३, ६. . .
वि(श्व)शान-मिश्र- २वसिष्ठ°
विश्व(श्व-ई)त - १तार°
 +विश्व(श्व-ई)श्वर(र-श्र)चैन- लक्ष°
वि/श्वस् > विश्व-स- सीता°
वि/विष् (वधा.) परि°
विष्- मां६°
 +विष्णु-भूय- अस्थि°
विष्- कालपाश°, लुत्पा°, इष्टि°,
 निर्°, भूतप्रेतपि...रोग°, महोम°,
 व्याघ्रयु...ला°, सकल°, सर्प°,
 सर्व°, सर्वव्याधि°, स्नेह°
 +विष्-भूत-रक्ष-कृत्या- सर्व°
 +विष्-विष्चिक्का- वृष्णा°
 +विष्णुमाण-, +वैष्णव- परि°
वि/व(स)व > विश्व-पाद- १काम°,
 जरा°, प्रीति°, हर्ष°
वि-व(स)म > वैषम्य- गुण°, वि-
 पय° साम्य°
विषम-ज्वर - अतिभयंकरज्वर°
विषय- ४अ°, अभिक्ता...न्द्रिय°, अती-
 त°, अनिष्ट°, अनुभूत°, अग्न्य°,
 अवाधितत्रयसुख°, आकाशका-
 ...ण°, आत्मन्°, १इष्ट°, कर्म-
 ज्ञानेन्द्रिय°, २काल°, २जाति°,
 जैवतन्मात्र°, १ज्ञान°, तत्तत्कर्म-
 फल°, तत्तद्, तद्, त्रैगुण्य°, इष्ट-
 श्रवण°, इष्टाश्रयविक°, देह°, द्रव्या-
 दि°, निर्द°, पञ्च°, पुङ्गावुद्ध°,
 पृथिवीका...त्, प्रति°, प्रयोग°, प्रा-
 यतन्मात्र°, वाशस्थ°, वाधाभ्य-
 न्तर°, १वक्रण°, २भावना°, १य-
 म°, रत्न°, १राम°, वस्तु°, १वाच्°
 वायुकार्यप्राणादि°, विदेहमुक्ति°,
 विद्या°, विशेषाविशेष°, शब्द°,
 शब्दादि°, शब्दाद्यर्थे°, सकल°,
 समस्त°, सर्वे°, सर्वथा°, सुध-
 दुःख°, सुखदुः...ख्य°, सुधम्°

a) 'सुवम्' इति ऋ १०, ९०, २ (तु. टि. वैपश् यस्या.) । b) अग्न्याः सं. अ.प्रा. l. c) मा ८, ३६ ।
 d) श्र ५, ८३, ५ । e) वया. द. =विष, वरार-धीजाचर- ।

+विषय-ग्रहण- १एकरूप°
 +विषय-जन- असत्संसार°
 +विषय-ज्ञान- ४अ°
 +विषय-देवता-कोश-भेद- अंश-
 त...भेद°
 +विषय-संप्रयोग- स्वस्व°
 +विषय-सुख- अविद्यमानफल्यु°
 विषया(य-आ)सङ्ग- निरस्त°
 +विषयो(य-उ)पराग- अनादि°

विषाण- सुर°, रारा°
 विषु>विष्व(पु/अ)च्>विष्व-
 (पु-अ)च्>विष्वक्-वेन- अ-
 नन्त°°, १ग्रह°°
 +विषुचिका^{११}- १विष°, तृष्णा°
 वि-ष्टप- त्रि°
 वि/ष्ट(<स्त)म्भ> +वि-ष्टप-
 +वि-ष्टम- त्रि°
 +वि-ष्टमन- ४अ°

२विष्टा- अल°, सुखरी°, स्व°
 विष्यु- ऋवे मै ६, ३५५। [०ण्यु-
 ४अ°, अति°, अरण्य°, १आदि°,
 दशान्°, पीठ°, १प्रह्वन्°, महत्°,
 वायु°, विरिधि°, श्री°, सदा-
 शिव°°
 वैष्णव- ४अ°, श्री°
 +वैष्णव-दिग्द-तेजोराशि-
 असंप्रदानदामित°
 +वैष्णव-पीठ- आधारस-
 त्तयादि°

+विष्णु-ज्वर^{११}- अतिमयंकरज्वर°°
 +विष्णु-जेत्र- वामपादाचित°
 विष्णु-मन्- ४अ°
 विष्णु-लिङ्ग->विष्णुलिङ्गन्- श्री
 रा ३२३ : ४°.

विष्णु(<>स्फु)लिङ्ग-भूत°°, सूद°°
 वि/स्व>+वि-स्वत- अर्थमार्ग°,
 भूमार्ग°
 वि/स्वृत्.>मात्रे>वि-स्वर्ग- वच-

न°°, ६स°
 +विसर्ग(क)- ६स°
 वि-सर्जन, नी°- एकान्त°, १भोग°,
 विष्णुत्रादि°, स्थूलदेह°
 +विसर्जन-पर- ५न°
 वि-सर्जयितव्य- ४अ°
 +वि-सर्जित- आत्ममाया°

वि/स्त्व, स्तृ>वि-स्तर- ग्रन्थ°,
 २त्रिगुण°, २न्याय°, १सृष्टि°, मी-
 मांसान्याय°, सु°
 वि-स्तार- अलक्ष्य°, आकृति°, भा-
 याम°, १ज्ञान°, तल्लोक°
 वि-स्तीर्ण, णां- अयुकोटर°, त्रिको-
 टियोजन°, दशकोटियोजन°, द्वि-
 हस्त°, द्विहस्तमात्र°, पृथयोजन°,
 पाद°, सप्तकोटियोजन°, सु°
 +वि-स्त्रुत- चतुरहुल°

वि/स्फुट> +वि-स्फुट- ४अ°,
 सु°
 +वि-स्फोटक^{११}- २राण्ड°°, शिरः-
 शूल°°

वि/स्फुर>+वि-स्फुरण- तारक-
 योग°

वि/स्मि>वि-स्मित- अति°
 वि/स्मृ.>स्मारि>+वि-स्मरण-
 तद्°, श्रुति°, स्वशरीराभिमानदेश°
 +वि-स्मारण- अन्यधर्म°
 वि-स्मृति- आरामन्°, ध्यान°
 वि-स्मृत्य ४अ°

वि/हन्>+वि-घात- ४अ°, दुःख°
 +वि-घाति(न्)>मी- दुराचार°
 वि-प्र- त्रिविध°, निर्°, महत्°,
 १मोक्ष°, २योग°, १विय°, श्रेयस्°,
 संन्यास°, सर्वे°
 विमा(प्र-अ)न्तक- पश्चान्तक°°

वि/ह्रा(त्यागे)>वि-हीन- अक्षको-
 रा°, आचार°, आदिमध्यान्त°,
 आनन्दादि°, एकमंथ्या°, फार-

णादि°, चराचर°, गुणामुण°,
 गुरुभक्ति°, चित्तश्रुति°, तद्°, त-
 पस्°, तुल्यातुल्य°, देहत्रय°, देह-
 भाव°, द्वैतादित°, ध्यातृध्यान°,
 नामरूप°, २नित्यानित्य°, पुष्य-
 लेश°, बन्धमुक्ति°, ब्रह्मविज्ञान°,
 भानाभान°, भावाभाव°, मद्रक्ति°
 मनःकोश°, मातृमान°, लक्ष्माल-
 क्ष्य°, लोकत्रय°, विकारादि°, सि-
 वभक्ति°, पञ्चविकार°, सदसत्°,
 संपूर्णभावाभाव°, सर्वदशय°, सर्व-
 श्रुति°, सर्वासर्वे°, सर्वैन्द्रिय°, सा-
 क्ष्यवस्तु°, स्थूलदेह°

विहायस्->विह->विह-ग- मयूर-
 कोकिलसारस°, शनि°°
 विहं-ग- नर°

+वि/हिस्>वि-हिंसक- ४अ°
 +वि-हिं(स)सा- १राग°°
 वि/ह्>+वि-हरण- १गुहा°, नभस्°,
 वचन°, स्वैर°

वि-हार- अद्वयपरब्रह्मन्°, अनन्त°,
 अनिर्वचन°, अविद्या°, आदि-
 द्वादशबन्°, धानन्द°, आहार°,
 कलरासज्ञान°, कुञ्जान्तरवि...ली°,
 क्रीडा°, ग्रहबन्°, १नित्य°, महा-
 वन°, यमुनाजलकक्षोल°, लक्ष्मी-
 टि°, रत्नलिता°, वन°, वनावति°,
 सदा°, सु°
 +विहार-देह- अनेक°
 +विहार-लीला- महावन°
 +विहार-संस्थान- परम°

वि-हारिन्- अव्याकृत°, अमितान-
 न्दा...रि°, कुप्र°, क्रीडावन°,
 बुन्दारण्य°, बुन्दानवन°, बुन्दानवन-
 श्रेणि°, महालीला°, १रति°, वन°,
 संकेत°
 +विहारि-ता- भाषा°°

वि/हल्ल>वि-हल्ल- सु°

a) म्यु! = रोमविशेष- । b) 'दृष्टये' इति मा ४०, १५ (तु. टि. वैश्व यस्या.) । c) अच्चा : सं. अया. ।
 d) भांश्चंरि वा इत् ।

वी(वि/इ(गती)) > १वीत- > वीत-
राग- ४अ°

*व्य(वि-अ)य- ४अ°, १धन°

वी- पद°
वी(वि/ई)ञ् > १वी(वि-ई)क्षण-
बाह्याभ्यन्तर°

*वी(वि-ई)क्षितृ- व्योमभाग°

वीञ्चि- महत्°, १विश्व°

+ √वीज् > वीजिञ्- सु°

वी(ण) > एण- किङ्किणी°, ज्ञानमुरा°
२राग°°

२वीत- √व्ये द्र.

वीथि, थी- अन्तर्°, अन्तर्गत°, ५ना-
ग°, परस्परज्यो...त°, प्रथमभू-
पुर°, बहिर्भूपुर°, बाह्यवृत्त°, मध्य-
भूपुर°, रत्न°

वीर- ४अ°, अति°, एक°, नरलोक°,
प्र°, १भद्रान्°, भद्रजाति°, मह-
त्°, योध°, २रखु°, सु°, २स्वस्ति-
क°°

वीर-भद्र- गणेश°°, श्री°

वीर-दृष्या- समस्तपात...क°°

वीर्य- अमन्त°, अल्प°, कृत°, १ज्ञा-
न°, महत्°, प्रह्ला°, सु°, खेद°°

*वीरखु- १वंश°

वी(<वि)-रुध्(<ह्)- २जल°°, प्रत्य-
वरत्°, वृत्त°°

√वृ(वारेण), > वारि अभि°, आ°,
निद्°, प्र°, प्रति°

१वर- अमय°, १चक्र°, पद्मद्रव्य°°,
प्र°, स्वयम्°°

वर-द- ३वर°

१वरण- प्र°

*वार्य आ°

१वार्य-
+ १वृत्- अभि°, निद्°

+ १वृत्ति- निद्°

√वृ (आच्छादने) अपा°, आ°, परि°,
प्र°, प्रा°, वि°, व्या°, सम्°, समा°,
संपरि°

२चरण- आ°, प्रा°
वरुध- > १वरुध-प- २सुरलोक°°
+ ३वार- परि°, प्र°
+ १वारित- परि°
२वृत्- अपा°, आ°, ज्वालावली°,
परि°, प्रा°, वि°, व्या°, सम्°,
समा°, संपरि > री°
+ २वृत्ति- अभिसम्°, आ°, सम्°
+ १वृत्त्य आ°, प्रा°, समा°
√वृ(प्रतिघातने) नि°
+ वारक- उदुत्पय°
+ २वारण- दुष्कृत°, नि°
+ २वारित- ४अ°
+ २वार्य- दुर्नि°
√वृ('वधा.) वि°
३वर- अमर°, इन्दी°, १देव°, पर्वत°,
प्राशाङ्कुरा...लु°, प्र°, १भद्रान्°,
भद्रविद्°, सुनि°, १सरस्°
वरिष्- भद्रविद्°, सर्वरहस्य°
+ वरीयस्- परस्°, भद्रविद्°
४-६वर- गपू, पृ७५६ द.
+ ७वर- + ४वरण- वि°
+ वर्य- मन्त्र°, २योगिन्°
व्रत- अभि°, अनु°, अशुचि°, उप-
सद्°, एकादश्रुपवासादि°, क-
था°, कर्मन्°, चातुर्मास्य°, चीर्षं°
तपस्°, तीर्थ°, १दृढ°, १देव°,
नियत°, नियम°, वैष्टिक°, १पति°,
पितृ°, प्रजापति°, प्रिय°, महाचा-
रिन्°, महत्°, २महालक्ष्मी°,
याग°, २वेद°, २वेद°°, शिरस्°,
१शिव°, शिवधर्म°, संशित°,
१सत्य°, सर्व°, सु°, सोमवार°
मतिद्- ४अ°
वृत्त- ४अ°, आम्°, एक°, कतक°,
४कल्प°, १कल्पक°, कल्पमुम°,
किंशुकप्रकलाप्र°, चीर°, गन्ध°,
चन्दन°, चित°, जम्बू°, तृण°°,
शैलोक्य°, दुःख°, नमस्°, नाना°,
२नानावृष्ण°, पर्वत°, पारिजातक°,
पुष्पित°, प्रति°, १फल°°, बकुल°,
विल्व°, मन्दार°, महत्°, रजन्°,
रुद्राक्ष°, लता°, १वासस्°, १वि-
प°, विष्णु°, शुष्क°, संसार°, सर्व°
+ वृक्ष-कौटर- काष्ठ°°
+ वृक्ष-त्रल- भव्य°
वृक्ष-वृण-पर्वत- ६स°
वृक्ष-मूल- शून्यागार°°
वृक्ष-लता- पुष्पित°
√वृज्('वधा.), > वर्जि अनु°, अप°,
आ°, उद्°, परि°, परिवि°, प्र°,
वि°, सम्°
२वर्ग- अप°, उद्°, सम्°
+ वर्य- प्र°
+ वर्ज- लकार°
+ वर्जन- अभिशस्तपतित°, उपाया-
न्तर°, पतिताभिशस्त°, परि°, प-
रिति°, भवभावन°, वि°, संकल्प°,
संकल्पाराधनासंभान°
+ वर्जम् कन्तोपस्य°, रत्त°, ३वर्ष°,
वर्षा°, पृह्विर्मि°
१वर्जित- अणुस्थूलादि°, अतिथि°,
अशितत्व°, आत्मशब्दार्थ°, आदि-
मध्यान्त°, आश्रय°, उभयोभन्त्°,
एक°, कलाकलन°, कामसंकल्प°
प्रथ्.
+ वर्जिन्- परदार°
वर्य- तच्छब्द°, समस्तयतातापात°
वृजिन- ४अ°
वृद्ध- √वृ(परि.) द.
√वृत्('वधा.), > वर्ति अति°, अनु°,
अनुपरि°, अन्वा°, अपा°, अभि°,
अभिप्र°, अभिसमा°, आ°, उद्°,
उपा°, नि°, निद्°, परा°, परि°,
a) गपू. (पृ७५३) यति. संख्यानिर्देशः द. । b) वैपरी यद. । c) यरा. द. =विप., आसनविरोध- प्रथ्. ।
d) व्यु. ? =उशीरतृण- । e) गपू. (पृ७५५) यति. संख्यानिर्देशः द. । f) साध. ।

पर्यां, प्र० वि० विनि०, विपरि०,
 व्यां, सम्, समा, संप्र०
 +वर्त- आ०, वि०, सम्
 +वर्तक- नि०, प्र०
 वर्तन- अतु०, अभि०, आ०, उद०,
 उपा०, प्र०, व्यां, स्वप्
 वर्तमान- आ०, परि०, मृत०
 वर्तयद्- निद्र०, समा
 वर्ति- दीप०, २अकि०
 +वर्तित- प्र०
 +वर्तितुम् नि०
 +वर्तिन्, नी- अन्तर्, आ०, १चक्र०,
 चतुष्पादन्तर्, चन्द्रमण्डलमध्यं,
 जाठर०, तदाज्ञापरा०, त्रिपीठ-
 मध्यं, त्रैलोक्यान्तर्, नि०,
 निदेश०, परस्परम्, छ०, प्र०, प्रख-
 वान्तर्, ब्रह्माण्ड०, मध्यं, वरा०,
 शीतलाशाय०, सखान्तर्, सर्व-
 भूतान्तर्, स्वयंकरिण...न्तर्
 वर्तुल- ६स०
 वारमन्- अखिल०, उद०, १कृष्ण०,
 त्रि०, वृषहृ०, मृत्युसंसार०, वैदान्त०
 १शिष्ट०, संसार०
 +वर्त्य आ०, निद्र०, परि०, विनि०
 वृत्- आ०, मि०, परि०
 वृत्त- ४अ०, अन्तर्, अपा०, अभि-
 प्र०, आ०, जघन्यपुण्य०, त्रिकोण-
 प...पत्र०, इद्र०, मि०, निद्र०, पी-
 न०, प्र०, बाह्य०, शुद्धि०, १मन्त्र०,
 यौवन०, विनि०, ह्या०, शील०,
 १सत्, सम्, मंत्र०, साधु०, सु०
 वृत्ति- अराएडाकार०, अजगर०,
 १अज्ञान०, अतु०, अन्तःकरण०,
 अन्तर्, अपारायन्, अभिधवा-
 ध...धुन०, अमलरान्त०, भा०
 प्रन्.
 +वृत्ति(क)- प्रशान्त०, शरीर०
 +वृत्तय अभिगमा०, आ०, निद्र०,

व्यां
 १वृत्त- √वृ (वरणे) परि. द्र.
 २वृत्त- √वृ (आच्छादने) परि. द्र.
 १वृत्ति- √वृ (वरणे) परि. द्र.
 २वृत्ति-, १वृत्त्य √वृ (आच्छादने)
 परि. द्र.
 √वृष् अभि०, परि०, प्र०, वि०, सम्,
 संप्र०
 १वर्धन- अभि०, जठराभि०, भिय-
 त्व०
 +२वर्धन- अनसूयानन्द०, आयुरा-
 रोम्य०, उत्साहयल०, गो०, पुष्टि०,
 १राप्, वि०, धीमेति०, सर्वा-
 नन्द०, सौभाग्य०
 वर्धमान- वि०
 +वर्धित- प्र०, वि०, सम्
 +वर्धिन्- अनन्तभोग०, १कामं,
 वि०
 +वर्धय अभि०
 वृद्ध- १कुर०, २कुल०, कुरा०, १ज्ञान०
 १देव०, १धन०, प्र०, १वयस्,
 वि०, विद्या०, विषवा०
 वृद्धि- अभि०, पचन्, १पद्य०, १पुत्र०
 पुष्टि०, प्र०, मृष्टबीजसमुत्पन्न०,
 मेदम्, २योग०, रस०, वहि०,
 २वासना०, वि०, सख०, सम्,
 संज्ञ०, सर्वसंपद०, सिद्धि०, स्व-
 वंश०
 +वृष- १मल्ल०, सदा०
 वृन्त- अद्धितीया...न्य०, १ताल०
 √वृष् (*बधा.) अभि०, प्र०
 ३वर्ष- अमृत०
 +वर्षण- अभि०, शीकरं
 +वर्षिन्- अमृत०, २काल०
 +वृष्- प्र० प्रा०
 वृष- अरव०, तेजम्, मद्ध०, ६स०
 वृष-मातु- १नन्द०, १नन्द०,
 धी०

+वृषमातु-चन- मयुरावन०
 वृषण- गुद०
 वृषम- -मः मउ ३, ११. [म-
 शिवधर्मानन्दमूर्ति०]
 वृष्टि- अमृतपुष्प०, दिव्यग...ष्प०,
 पुष्प०, ब्रह्मकल्प...ष्प०, मद्वात्,
 सु०
 √वृह आ०, परि०, प्र०, वि०, सम्
 +वृद्ध- परि०
 +वृद्ध प्र०
 +√वि, > १उत- आ०, प्र०
 वेक- वेचक- वेचन- √विच्(परि.)द्र.
 +वेणी- त्रि०
 वेणु- २राग०, १शङ्ख०
 वेताल- दैत्य०, भूत०, भूत०
 +वेताल- अभि०
 +वेताल- ब्रह्मराक्षस-ज्वर- अ-
 तिमयंकरज्वर०
 +वेत्र- तन्त्रीराष०, वेणु०
 १-वेदेद- गप्, वृ० ०० द्र.
 धेदेद- √विद् (लाभे) परि. द्र.
 वेदक-, १वेदन- √विद्(ज्ञाने)परि.द्र.
 २वेदन- √विद् (लाभे) परि. द्र.
 ३वेद(न>ना)- शिरकर्णादि०
 वेदनीय-, वेदया-, वेदयित्वा √विद्
 (ज्ञाने) परि. द्र.
 १वेदस्- √विद् (लाभे) परि. द्र.
 २वेदस्-, वेदस- √विद् (बधा.)
 परि. द्र.
 वेदि, दी- अन्तर्, उत्तर०, मि०, प्रति-
 मा०, १हृद्, १शिव०
 वेदि(क->)का- आनन्द०, चतुरध०
 विदानन्दमय०, चिन्मय०, पिद्-
 तर्पण०, मन्दार०
 +वेदिका-स्थान- स्वामय्यो-
 तिमयंचिद्रूप०
 वेदित-, १वेदिन्- √विद्(ज्ञाने)
 परि. द्र.

a) मन्वे इत् (गुट्) [१०९८] यनि. संख्यानिर्देशः द्र.)। b) कर्त्तरि इत्। c) वया. द्र.। d) व्यु. १।
 e) मत्. (१०००) यनि. संख्यानिर्देशः द्र.।

२वेदिन्-√विद् (बधा.) परि. द.

वेद्य √विद् (ज्ञाने) परि. द.

+वेद्याद्यस्थिरमायाद्य- -घ्याः पी
४२२: १२.

वेद्यनी-√विधू(परि.) द.

वे(ल>)ल्ला- अन्त°, २काल°, धूप°,
नीहार°, गंगव°, रामुद°

१वेद्य-√विरा(परि.) द.

२वेश-क्या°, सायु°

वेशनी-, वेशयत्-, *वेशया-, वेश-
विरवा, वेशित-√विरा(परि.) द.

वेशमन्- १वर°

वेश्य-√विरा(परि.) द.

वेश-कापाम°, छण°, गोप°, तुरीया-
तीतावभूत°, नर°, नाना°, बालो-
न्मत्पिशाच°, सु°

√वेष्ट्, > द्वि भा°, परि°, प्र°, समू°, समा°

वेष्टन-कामबीज°, कौपीन°, चतुरमुल°
+वेष्टयिन्- परि°

वेष्टित-कवियामूल°, भा°, तत्सृष्टि°
परि°, प्र°, भूततन्मात्र°, श्रद्ध°,
संकल्पवासनारज्जु°, समू°

+वेष्टित्- परि°

+वेष्टय समू°, समा°

वेष्टुम्, १वेष्ट-√विरा(परि.) द.

२वेष्ट-√विधू(बधा.) परि. द.

√वे(शोपणे) उद्°

वैकल्य- विकल- (परि.) द.

वैल(र>)री- पत्°

१वैखानस-> +वैखानस-वर्षत-
१राम°

वैताल- वैताल- (परि.) द.

वैदुम- विदुम- (परि.) द.

वैद्युर्य- विदुर- (परि.) द.

वैयासकि- व्यास- (परि.) द.

वैर- निद्र°, आठृ°, श्रेद्°

वैरिन्- अशुद्ध°, अनित्य°, शम्बर°,
सर्वजन°

व्य(वि-अ)प्र- ४अ°, गत°, तत्तत्कर्म-
कर°, सु°

व्य(वि/अ)जू> व्य(वि-अ)जन-कृत°
+व्या(वि-आ)ज- कन्दुक°, जलक्री-
डा°, तद्°

व्य(वि/अ)इच्> व्य(वि-अ)क- ४अ°
+व्यक-यकप्र- -कप्रः जाद ३, ६,
२°

व्य(वि/अ)इजू> १व्य(वि-अ)जन-
४अ°, शब्द°, स्वर°

+व्य(वि-अ)ति/कृ(करणे)> व्यति-
कर- ४अ°

व्य(वि-अ)ति/पत्(गती)> व्य-
(ति)> गी-पात- महत्°

व्य(वि-अ)ति/रिच्> व्यति-रिक्-
४अ°, आचार्य°, स्वद्°, देहादि°

नारायण°, निन्दास्तुति°, १मक्रन्°
मद्°, रसमार्ग°, शरीरादि°, स्व°,
स्वरूपानुसंधान°, स्वशरीर°,
१स्वस्वरूप°

व्य(वि-अ)ती[ति/इ(गती)]> व्यती-
(ति-इ, त- स्थानत्रय°
+व्यत्य(ति-अ)य- २पवन°, सं-
भव°

√व्यथ् परि°, प्र°
व्यथ, था- गत°, देह°

व्यथमान- ४अ°
+व्यथित- प्र°

व्य(वि/अ)न् (प्राणने), > आनि>
व्या(वि-आ)न- अन्तःकरण°,
उदान°, प्राण°, १समान°
+व्या(वि-आ)नयितव्य- ४अ°

व्य(वि-अ)प/दिश्> व्यप-दिष्ट-
यथा°

व्यप-देश- ४अ°, अर्थान्तरत्वादि°,
अभिमानिन्°, १असत्°, १इतर°,
ईक्षतिकर्मन्°, उच्छ्वासानिश्वास°,

उभय°, कर्मकर्तृ°, विरचित्प्र°,
तत्तद्°, तद्°, तद्मन्°, नाना°,
निमित्त°, प्रधान°, भूतादिपाद°,
भेद°, मुक्तोपपद्य°, पट्टी°, संसार°

सेतन्मा... द°, स्थानादि°, १हेतु°
+व्यप-देश- ४अ°

व्य(वि-अ)पा(प-आ)/ध्रि> +व्यपा-
ध्रय- अर्थ°, चराचर°, मद्°

+व्य(वि-अ)भि/चर्> व्यभि-चार-
४अ°, उभय°

+व्यभि-चारिन्- ४अ°

व्य(वि/अ)य्> व्य(वि-अ)यमान-
४अ°

व्यय- वी (परि.) द.

व्य(वि-अ)र्थ-> +वैयर्थ्य- ४अ°

व्य(वि-अ)व/च्छिद्> +व्यव-
च्छिन्न- ४अ°

व्य(वि-अ)व/घा> व्यव-घान-
४अ°, ज्येष्ठाज्येष्ठ°

+व्यव-हित- जातिदेराकाल°, सू-
क्ष्म°

व्य(वि-अ)व/सो>सा> व्यव-सा-
य-> +व्यवसायिन्- ४अ°

व्य(वि-अ)व/स्था> व्यव-स्था-
जन्मादि°, स्वविद्वान्त°

व्यव-स्थित- द्वारशाखा°, तर्षकाल°
१स्वर्गलोक°

+व्यव-स्थिति- कार्यार्कव्य°, चिदेक-
त्व°, जीवन्मुक्त°, ज्ञानयोग°

व्य(वि-अ)व/ह> व्यवहार- २अस-
त्त्वं°, इत्यादि°, २जापन्°, निखि-
लनिग... मन्°, नि.सह°, बन्ध-
मोक्षादि°

व्यव-हार्य- ४अ°
व्यव-हृति- बाधिकर्मन्°

व्य(वि/अ)य्(व्याती)> १व्य(वि-अ)-
ष्टि- सर्वकारण°

+व्यष्टि-मस्तक- समस्त°

a) पा? वेद्याद्यस्थिरमाया(पा-आय>)घा- इति शोधः द. । b) वप्रा. द. =तट-, २काल- ।

c) गद्. (पृ०००) यनि. संख्यानिर्देशः द. । d) अख्याः यो. अया. ।

व्या(वि/या)स् (सोपरो) > व्या(वि-अ)-
सन- छष्टि^०

व्या(वि-आ)कुल- ४अ^०

व्या(वि-आ)√कृ(करणे) > व्या-कृत-
४अ^०

+व्या-कृति- सर्व^०

व्या(वि-आ)√स्था > व्या-स्थान-
१प्रथ^०

+व्यास्थान-मण्डप- श्रीमद्^०

व्या(वि-आ)√घ्रा > १व्या-घ्र-
पचिन्^०, दुष्टकीट^०, १पुरप^०,
राजन्^०

+व्याघ्र-मुख(मूय^०)-सर्व(सं^०)-वृद्धि-
का(क-अ)भिन्नाला-विप-
-पच् लां २१६: १४.

व्याज- व्यञ् (परि.) द.

+व्या(वि-आ)√दिश् > व्या-देश-
श्रीवा^०, १त्वच्^०, नखरोमन्^०

व्या(वि-आ)√घा > व्या-धि-आधि^०
श्रण^०, गर्भ^०, जन्मन्^०, निर्^०,
मुदि^०, १मनस्^०, महत्^०, १यल्यु^०,
सर्व^०

व्या(वि/या)प् > व्या(वि-आ)पक-
अद्वितीय^०, अन्तर्बहिस्^०, आत्म-
न्^०, मदिलसण^०, १विश्व^०, व्या-
प्य^०, समशविषाण^०, सर्व^०

व्या(वि-आ)पिन्- ४अ^०, कोटिवै-
कुण्ठ^०, दिवाणस्^०, २भक्त^०,
१विरव^०, १द्योमन्^०, सफलकला^०,
सवाग्नाभ्यन्तर^०, सर्व^०

व्या(वि-आ)प्च- ४अ^०, संज्ञा^०, मसै-
क्याद^०, १स्वप्न^०

व्या(वि-आ)पिञ्- पु^०, विपय^०

+व्या(वि-आ)-पारपहुर- भरमन्^०

व्या(वि-आ)√वृ > व्या-वार-जगन्^०
तपद्रवृति^०, तद्^०, निर्^०, मन्त्र-
तन्त्र, १शाप्^०, तर्प^०

+व्या(वि-आ)√मुह् > व्या-मोह-
उभय^०

+व्या(वि-आ)√यम्(दैव्ये) > व्या-
याम्- प्राप्ति^०

+व्याल- ६स^०

व्या(वि-आ)√वृत्, > वृत्ति > १व्या-
वर्तन^०- विपय^०

२व्या-वर्त(त)ना^०-

व्या-वृत्त- ४अ^०

व्या-वृत्ति- अन्यभाव^०, जड^०, तद्^०

+व्या(वि-आ)शा- २आशा^०

व्यास^०- २वेद^०

+वैयासकि^०- २वासिष्ठ^०

+व्या(वि-आ)√हन् > व्या-घात-
स्ववचस्^०

+व्या-हत्त- ४अ^०

व्या(वि-आ)√ह् > व्या-हृत- ४अ^०
व्या-हृति- पद्यन्^०, प्रणय^०, भृशुं-
स्वरिति^०, महत्^०, ६स^०, सप्तन्^०

व्यु(वि-उद्)त्/पद् > +व्युत्-
पद्म- लोक^०

+व्युत्पन्न-मनस- ४अ^०

व्यु(वि/ऊ)ह्(वहने) > व्यु(वि-ऊ)ह-
१अत्र^०, आनन्द^०, काय^०, चतुर^०,
२तारा^०, परमानन्द^०, बोधानन्द^०,
२वासना^०

व्युह-भेद- द्वाविशन्^०

+व्ये > वी, > २धीत- भा^०, उप^०,
नि^०

व्योमन्- एकान्त^०, १चिन्^०, तदन्त-
गन्त^०, तारन्^०, पद^०, परम^०,
१मनन्^०

व्योम-पयस्क- वायाभ्यन्तरश्च^०

+मज्(वधा)अनु^०, अनुगम्^०, अभि^०
अभिप्र^०, भा^०, उद्^०, परि^०, प^०

मजन्- अनु^०, प्र^०

+मजन- परि^०, प्र^०

+व्रजित- +व्रजिष्यत्- प्र^०

+व्रज्य-अभिप्र^०, परि^०, प्र^०

+व्र(उय) > उया- प्र^०

+व्राज्, +व्राजक- परि^०

+व्राजिन्- प्र^०

१व्रज- गो^०

व्रण- ४अ^०, नाडी^०, निर्^०, शकवाण-
सूत^०

+व्रतति^{११}- वृषि^०, संघति^०

√व्रश्च परि^०

२वृक- २साला^०

वृषण- परि^०

वृश्वक- द्वादशकुल^०, १व्याघ्र^०,
सर्व^०

व्रात- ऐहिकामुष्मिक^०, सिन्दूर^०

+व्रीह् > व्री(ह्)डा- निर्^०

व्रीहि- तिल^०

श

+श^१- गिरि^०

+शस् (खुतौ) अनु^०, अभि^०, आ^०, प्र^०
+शंस- उद्^०

+शंस(स)ंसा- प्र^०

+शंसिन्- अभि^०, १व्राह्मण > शात्^०
शस्त- शस्ति- अभि^०, प्र^०

+√शंस्(हिंसायाम्) > शंस^१- वृ^०
√शक्(वधा) > शक्त- ४अ^०, अति-
पूर्व^०, अन्तर्धारण^०

शकि- ४अ^०, अचिन्त्य^०, अज्ञान-
माया^०, अथत्^०, अतत्रतुमुमादि^०,
अनन्त^०, अनेकयत्^०, अभ्यासवा-
सना^०, अविद्या^०, आत्मन्^० प्रमृ^०.

+१शक्ति(-क)- नति^०, १श^०

२शक्ति-क-

+शक्ति-बोध- उत्तरण^०

शक्प- ४अ^०, दुग्^०

a) पा। नि. शोषः इ. । b) गृह्, (इ०५) यनि. शोषः इ. । c) व्यु. १=घर्- । d) भा. १ । e) गृह्, (इ०५) यनि. शोषः इ. । f) व्यु. १=वृत्ती- । g) वीर यर. । h) गु. गृह्, १४६७k । i) गृह्, (इ०५) यनि. शोषः इ. ।

वज्रपतालकृत°, विद्यानन्दमय-
 ...व्य°, व्यापक°, शब्द°, ६स°,
 सुखालंकृत°, स्रुतम्°, स्थूल°, ख°
 शारीरक-कठवलेलो°, भिन्नु°
 शरीरक-मद्°
 +शरीर-मात्र-अनुष्ठानप्रदेश°
 +शरीर-वृत्तिक-कुणपवत्°
 +शरीर-संयोग-अप्राप्त°, प्राप्त°
 शरीरिन्-४अ°, सर्व°
 शर्कर(र)>रा-एला°
 +शर्याति°-सुयुम्न°
 शरला(क)>का-अजन°, अनर्हभाव°,
 अयस्°, बुद्धि°, १सोह°, ४शर°,
 शृत्रदन्त°
 शल्य-वि°
 शय-वः कुं २० : ७°
 +शश>शश->+शश-विन्दु°-
 सुयुत्र°
 शशिन-स्रयोत°, वृन्दावन°
 +शशिनारि-आ°
 शश्वत्->शश्वत्-४अ°, स्वरूप-
 तेजोमय°
 +शशकुली°-१कक्ष°
 +शश(हिंसायाम्)>२शशस्त्र-४अ°,
 १असन्न°, यदायायुष°, १जल°,
 नागा°, महान्यकार°
 +शासक-समस्ताप°
 १शाक->शाकि(रु)>नी-अरिष्ट-
 कारिणी°, भूत°
 २शाक-कुमुम्भ°, सर्व°
 शाख,खा-अद्भु°, अधस्°, अवाह्°,
 आधर्वण°, एकविंशति°, काख°,
 त्रि°, द्वार°, पथान°, प्र°, प्रति°,
 बहु°, मयुर°, रक्ष°, २वेद°, ६स°,
 सर्व°, सहस्र°, सान्ध°, साम्भ°,
 स्व°
 शाखा(खा-श्र)म-प्रतिविम्बित°

+शाखिन्-विष्टप°
 शा(टि)>टी-एक°, क्रीपीन°
 +शाद्°->शाद्-बल°-२हरित°
 शाम्यत्-√शम्(परि.) द.
 शायिन्-√शी(परि.) द.
 शारिका-शुक°
 शाङ्ग-१शृङ्ग°-द.
 शाङ्गल-१कपि°, मुनि°
 शात,ला-अभिज्ञान°, कुलाल°, चन्द्र°
 १चित्र°, प्राचीन°, १ब्रह्मन्°, म-
 हत्°, रोग°, विचित्र°
 +शाला(ता-श्र)शृङ्गक-पन्न°
 शालि->+शाल्य(लि-श्र)श-गो-
 धूम°
 +शशालिन्,नी-अव्यक्त°, आनन्द°,
 वल्लास°, १कृपा°, घनाहंकार°,
 दुःखकण्ठक°, वृत्त°, परोपशम°,
 १रूप°, राम°, धीराधाररुधाभा°,
 सहस्राङ्गु°-सर्व°, कृष्यस्थिप्रान्थि°
 २शालि(रु)>नी°-
 +शश अतु°, अभ्यनु°, आ°, प्र°,
 प्रति°, समु°
 शासन°-अतु°, प्र°, प्रति°, १श्रुति°
 +शासमान-अतु°
 +शासितृ-अतु°, प्र°
 शास्त्र-प्र°, १विश्व°, सर्व°
 शास्त्र-अखिल°, अव्याप्त°, अन्य°,
 असंकल्पन°, १असत्°, आचार्य°,
 १इतर°, उद्°, गुरु°, ज्योतिस्°,
 धर्म°, बहु°, मन्त्र°, महत्°, १गो-
 च°, यया°, २योग°, २वेद°, वेदा-
 दि°, व्याकरणज्योतिषादि°, १श्रु-
 ति°, १सत्°, सर्व°, १सांख्य°,
 साधु°
 +शास्त्र-गुरु-बहु°
 +शास्त्र-विहित-४अ°
 +शास्त्रा(ख-श्र)थं-संगम-गुरु°

+शास्त्रिन्-परिदत्°
 +शास्य-, +शास्यमान-आ°
 १शिक्ष-अतु°, गुरु°
 शिक्षि-२सह°
 +शान्य अतु°
 शिष्य-४अ°, अतिसेवाप...वत्°,
 गुरु°, शस्त्र°
 +शास-आ°, प्र°
 +शिष्युपा°-आप्त°
 शिष्य-१विद्वेद°, पिठर°
 +शिष्य>शिक्षित-४अ°, सु°, स्वा-
 श्रमो...दत्°
 शिख,खा-४अ°, अथर्वशिरस्°, अ-
 नल°, केशसमूह°, चिन्तानल°,
 १ज्ञान°, त्रि°, १विद्वेद°, दीप°,
 दुष्कृतामि°, १धूम°, पत्रम्°, बद्ध°,
 विन्दुनादशिरस्°, २योग°, बहि°,
 वि°, ६स°, सिद्धान्त°
 शिखा-यज्ञोपवीत-बहिलेक्ष्यमाण°
 १शिक्षिन्-४अ°
 २शिक्षिन्-प्रत्यगज्ञान°
 +शिखो(खा-उ)पवीत-अन्तर्°,
 प्रणवर्हस्°, प्रापदिक°, बहिष्प्रपथ°
 +शिखोपवीत-धारण-अन्तर्°
 शिखण्ड-१नील°
 शिखर-अत्यन्तोन्नतान्त°, अनन्त°,
 अनन्तवि...जाल°, अनेक°,
 आनन्दपर्वत°, कैलास°, ज्वलत्°,
 ब्रह्मतेजोमयानन्त°, रत्नसानु°,
 शतकोटि°, सर्वधान्य°, सहस्र°
 शित-√शो(परि.) द.
 शिथिल-४अ°
 शैथिल्य-प्रयत्न°, बन्धकारण°
 शिरस्-४अ°, अधर्वन्°, अधस्°,
 अरव°, आकृषित°, आनन°,
 श्रुत्वेद°, काय°, गोवर्धनादि°,
 शीका°, चतुर°, त्रि°, १त्वच्°,

a) वैश १ यद.। b) अज्या सं. अया। c) व्यु.। d) पा ४, २, ८८। e) ग५. (५८२०). यनि. सोधः द.।

f) ग५. (५८२०) यनि. संख्यानिरदेशः द.। g) भावे कतेरि वा कृत्। h) व्यु. = श्चविरोप-। i) यया. द. = अत्र-विरोप-, उपनिषदिरोपैच्छेदः-।

१पार्वी, पिण्डाण्ड°, प्रष्टवंश°,
 प्रणव°, प्राच्, प्रावृत्, प्रिय°,
 पिन्दुनाद°, मयूरपिच्छ°, यजुर्वेद°,
 वागीधरीधामन्°, विधत्तस्°,
 रवेद°, व्याहृति°, षड्दशन्°,
 सामन्°, सामवेद°, सा°
 †शिरः-पाद-समुभत°
 शिरन्-शूल-अक्षशूल°
 †शिरस(क)-४अ°, अव°, वि°
 †शिरो-धर-काय°
 †शिरो-मणि-भानन्दरसिक°, रस-
 सुखरसिक°, रसिक°, रसिकानन्द°
 †शिरो-रुह-ज्वालामाला°, नाग-
 पुण्य°, हर°
 शि(ल>)ला-२मनस्°, २सुगन्ध°
 शैल-ताम्र°, महन्°, श्री°
 †शैल-वन-कानन-६स°
 शिल्प->†शिल्पिन्-महत्°
 शिय-४अ°, अद्वैत°, जीव°, नित्य-
 शुक्ल°, १पर°, परम°, १ब्रह्म-
 न्°, १ब्रह्मानन्द°, १ध्द°, साक्ति°,
 सदा°, साम्ब°
 शैव-महत्°
 †शैव-धर्म-शिववि...त्°
 †शिव-तरव-ज्ञान-परमरहस्य°
 †शिव-तरव-विद्या-परमरहस्य°
 †शिव-पञ्चा(य-अ)क्षर-मन्त्र-
 प्रणवयुक्त°
 शिव-शक्ति-शक्ति°
 †शिवा(व-आ)त्मन्-आधाररूप°
 †शिवा(व-आ)दि-चिह्ना(ह-अ)-
 म्बित-४अ°
 शिवा(व-अ)न्त-वृथिव्यादि°
 शिवा(व-आ)लय-४अ°, अनन्त-
 गणेशवित°
 †शिवा(व-आ)धय-४अ°
 शिश्नान-√शो(परि.) द.
 शिशिर-हेमन्त°

शिशु-सशोजात°
 †शिशुर(>)रा-विराजा°
 शिश्र-पाणि°, शिरस्°
 √शिश्रु>शेषि अति°, अव°, उद्°,
 निस्°, परि°, वि°, समुद्°
 शिष्ट-अति°, अव°, उद्°, परि°,
 यज्ञ°, वि°, समुद्°
 शोष-४अ°, अति°, १आदि°,
 उपायनशब्द°, तद्°, १नित्य°,
 निस्°, परि°, १यथाक्त°, वाक्य°,
 वि°, विधि°, शम्भुफलवत्°,
 संस्कार°, होम°
 †शोषा(प-अ)श-१अहम्°
 शोष->शोषा-१शिव°
 †शोषक-अव°
 †शोषण-वि°
 †शोषित-निस्°, वि°
 शिष्य, शिस-√शाम्(परि.) द.
 √शी अति°, अपि°, अतु°, आ°, सम्°
 †शय-अति°, अतु°, आ°, १गुहा°
 गुरि°, सम्°, सर्वभूतगृहा°
 †शयपथै आ°
 शयन-आसन°, उपायन्°,
 १कथा°, भूतल°
 शयान-भस्मशाण्या°
 †शयित-शय°
 श(त्र्य>)ष्या-अनेक°, पुण्य°,
 भस्मन्°, पंचित°, वस्त्र°, विद्वार°,
 †शब्द(प्या-आ)सन-नीच°,
 शिला°
 १शब्दो(प्या-अ)पकरण-६स°,
 संस्थापक°
 †शायिन्-अस्तमित°, उत्तान°,
 क्षीरोदारणव°, तिर्यगूर्ध्वमधस्°,
 नदीपुलिन°, १ब्रह्मन्°, भस्मन्°,
 भूमि°, शेष°
 †शीलि-सम्°
 †शीकर-२जल°, जलयन्त°

†शीकर-यर्षण-धारागृह°
 शीर्ष, शीर्ष-√शु(परि.) द.
 शीर्ष-अवर्षन्°, अनन्त°, असंख्य°,
 इक्ष्वाकुर्यंशब्ज°, जटाभारलस-
 त्°, तद्°, द्विरास्तसाहस°, पञ्चन्°,
 पाद°, मृग°, सहस्र°
 †शीर्ष(क)-चतुर°, सुरिष्ठ°
 शीर्ष-क-
 शीर्ष-तम्(>) शशि ६, ७°
 शीर्षन्-अनन्त°, वि°, सहस्र°
 √शील्(°बधा.)>लि परि°
 शील-अध्ययन्°, अतु°, एकान्त°,
 २कुल°, १दान°, धर्म°, १ध्रुव°,
 प्रकाशक्रियास्थिति°, गृहज्वा...
 प°, भ्रमण°, यत्°, संचार°,
 सर्वलोकसंचार°, सु°, स्वप्न°, ह्य-
 प्रीति...प°
 †शील-वृत्त-अलक्षित°
 †शीलित-परि°
 श्युक-कोकिल°, १भ्रमर°°
 श्युक-२श्री°, २संतर्क°°
 †श्युक-रहस्य... कठवल्ली°°
 †श्युक-वामदेव-जगकया...दि°
 श्युक्ति->शुक्ति(क>)का-द्विचन्द्र°,
 मह°
 √शुचु(शोके), >शोचि अतु°, सम्°
 शोक-४अ°, अशानया°, १काम°°
 जरा°, जरा°, दुःख°, १भय°,
 वि°, १वीत°, सम्°, सर्व°, हर्ष°
 शोक-भय-, †शोक-भया-
 (य-आ)घास-१वीत°
 शोचिषुम् अतु°
 शोच्य-४अ°
 √शुचु(°बधा.) नि°
 शुच-अन्योन्यवा...त°, अस्थि°,
 मृत्°°
 १शुक्ल-१लोहित°
 २शुक्ल-४अ°, चम्पक°, २रक्त°

a) न्यु. ? = नाडीविशेष- । b) भावे कर्तारि वा कृत् । c) न्यु. ? । d) गृह. (इ०२९) यनि. संख्याननिर्देशः द. ।

e) 'शोचं.' इति अस्या. । f) = तदाह्योपनिषद्-विशेष- ।

रस°, रलोहित°, सर्व°
 +शुक्ल-पक्ष- अश्वयुज्°
 शुचि- ४अ°, आत्मन्°, १नित्य°,
 पवमान°
 शौच- ४अ°, अष्टन्°, अहि-
 सा°, १ज्ञान°, देवाचन° शुद्ध°,
 १सत्य°, स्नान°, स्वाध्याय°
 शुचि-रूप- -पः अहि १°.
 +शु(एङ>)शु°- गुड°
 √शुष्, >शोधि परि°, वि°, सम्°
 शुद्ध- ४अ°, अखण्ड°, अति°,
 अद्वितीय°, अद्वैत°, अन्तर्दू°,
 १वेवल°, गुणातीत°, दृढतर°,
 १नित्य°, निरुपम°, परमानन्द°,
 परि°, १भाव°, महत्°, वाचामगो-
 चर°, वि°, व्यपगतक...ङ्°,
 सम्°, सु°
 शुद्ध-बोध- अनन्त°, अपरिच्छि-
 दानन्त°
 शुद्ध-ब्रह्म-तेजस-> शुद्धब्रह्म-
 तेजो-भय- पुराकल्पि...य°
 शुद्ध-भाव- ४अ°
 +शुद्धा(इ-आ)नन्द-परिघ- अ-
 नन्त°
 शुद्धि- ४अ°, अक्ष°, आत्मन्°, आ-
 हार°, इन्द्रिय°, रकर°, कर्मन्°,
 वसुम्°, चित°, देह°, नाडी°,
 १भाव°, भावात्मन्°, मतिवि...
 ति°, १मनस्°, वि°, शरीर°,
 राश्व°, रधान°, रवात्मन्°
 +शुद्धि-क्षालना(ने-आ)घमन-
 रजल°
 +शुद्धि-माषहृषापन-प्रणवाय-
 षेन-भापृष्टना(ने-आ)स्तर्मात्-
 का(इ-य)स्तर्मा(ग-आ)दि-
 आतरपा...त°
 शोधन°- कपाल°, १शुष्°, शरीरिन°,
 नाटि°, मागिका°, भृशपररप...

पद° विद्यायुग°
 शोधित- नानाकल्पम°, वि°
 +शोधिन्- वि°
 +शोधय वि°, सम्°
 √शुभ्(वधा.), >शोभि अभि°, उ-
 प°, सम्°
 शुभ- ४अ°, सदा°
 शुभा(भ-अ)ङ्ग- प्रफुल्लित...र°
 शुभा(भ-अ)शुभ- अन्तर्लानस-
 मारम्भ°, विविधविचित्रानेक°
 +शुभाशुभ-संकल्प- ४अ°
 शुभे(भ-इ)च्छा- विचारणा°
 शुभ, अ- कपिला°, परि°, रहरि-
 त°, रहरित°°
 शोभ, भा- १अङ्ग°, अनन्यभाव-
 रूप°, उप°, चरणकमलमञ्जरी°,
 बाहु°, वृन्दावन°, मणिषटितहा-
 ...जाल°, मनोहर°, मार्ग°, १ह-
 प° शैशश्ङ्कार°, सम्°, सन्°, शु°
 शोभन- ४अ°, अति°, शाकश°,
 परम°, प्रफुल्लित...भाङ्ग°, सु°
 शोभमान- बहु°, सम्°, सु°
 √शोभाय>शोभायमान-
 अति°, अत्यन्त°, सु°
 शोभित- अति°, अभि°, उप°, ना-
 नारङ्ग...म्भ°, परमानन्द...वन°,
 पूषोम्भा°, यूपशाना°, शोषायुतक-
 ...च्छन्न, पद्कोणम्...परि°, सु°
 +√शुभ्>शुम्भि(न्>)नी- एक-
 वृक्ष°
 शुम्भ- १मथु°°
 √शुप्, >शोवि अति°, अनु°, उद°,
 उप°, परि°
 +शुप् अनु°
 शोप- सुपुत्राना...ल°
 +शोपक- रेवक°°
 शोपण°- उद°, शाय°, देह°, शरीर°
 +शोपिन्- १वि१°

शोष्य- ४अ°
 १शुक°-
 +२शुक^८- नीवार°
 शुद्ध- १ब्रह्मन्°, १ब्राह्मण°...त्री°
 +शुदा(इ-अ)ञ-भोजन- समस्तपा-
 ...तक°°
 शुन्य, न्या- ४अ°, अति°, अन्तर्दू°,
 अभिमान°, १आदि°, आदिमध्या-
 न्त°, आयन्त°, इतरलक्षण°,
 क्षण°, गमनादि°, चिर°, तदाल-
 म्बन°, देवान्तरध्यात°, देह°, अष्ट-
 दश...ष° निरवय°, पात्रान्तर°,
 पुरुषार्थ°, प्रचार°, प्रभा°, प्रभाम-
 ...दि°, बहिष्°, बाह्य°, बुद्धि°,
 १मनस्°, महत्°, सञ्चय°, सञ्च-
 खा°, वस्तु°, वि°, वृत्ति°, ध्योम-
 न्°, शमादिपदक°, पदभाववि-
 कार°, समाधि°, सर्वे°, सर्वसंख्या°
 १स्वरूप°, स्वसमानाधिकरण°
 १शूर- -रम् मउ २०, ३१. [१-
 ४अ°]
 शूल- अहि°, १अङ्ग°, अष्टन्°, उदर°,
 कटि°, १कण्ठ°, कुक्षि°, गुद°, गु-
 लफ°, ३गुल्म°, जङ्घा°, जानु°, वि°
 दन्त°, दृष्टि°, नेत्र°, परिणाम°, प-
 रिधानन्°, परिमाण°, पाद°, १पा-
 तु°, पित्त°, सुष्टि°, सुष्टिपार्व्व°,
 सुष्टिपृष्ठ°, १चक्र°, वात°, शिरस्°,
 सर्वे°, सुमनस्°, स्तन°, रहरत°
 +शूल(क)- वि°, धनुस्°
 शूला(ल-अ, म- अष्टन्°
 शूल(ल-अ)ला- तीक्ष्ण°, दुःर°
 शूलङ्ग- ४अ°, गो°, वज्र°, नर°, वृ°,
 मेरु°, वि°, वेणु°, शश°, तप्तन्°,
 दिरस्य°
 शाङ्ग- कौशुम्भ°, १शाङ्ग°, शुद्ध-
 रान°
 २शृङ्ग- शूष्य°

१) घण्टा: ना. घण्टा । २) शी° इति मंटे. । ३) घृ. १ । ४) चरणार्थे ऊर्. । ५) भावे कर्त्तरि वा कृ. ।
 ६) गृ. (१८१५) घनि. संख्यानिर्देशः ३. । १) शृ ६, ४०, ११ ।

*शृङ्गाट- १ मूल°
 शृङ्गार- आत्मसुख°, फीला°, गन्ध°,
 गृह°, नित्यन्-...°°, १रति°, २वे-
 शी°, शय्या°, सुरा°
 + शृङ्गार-भूषण- सकल°
 १ शृङ्गार-रस- महत्°
 शृङ्गार-वत्-
 शृङ्गारवती- १सल्लिता°
 शृङ्गारवत्-सखी- दुय्यशय्या°
 शृङ्गार-सुख- परस्पर°
 शृङ्गार-स्थान- रसिकानन्द°
 + शृङ्गारा(र-आ)म-सुख-सुरतान-
 म्द्व-...-तिका°
 √शू(°वपा.), >शिर नि°, वि°
 शर- १शङ्ख°, शत°, १स°
 + श(°शलाका- १आरा°
 : शाराह-शीर्ष- वि°
 + शीर्ष नि°
 + शीर्ष- ४अ°
 शैव->शैव-धि- सु°
 १-२शैव- √शिप्(परि.) द.
 शैशव- १शङ्ख°°
 + शैव-भोगा(ग-आ)सन- शुद्ध°
 + शैव-आधिन्->शैवसाधिवन-
 मयुगवन°°
 शोषक-शोषण, शोषित, √शिप्(परि.) द.
 शौचाल- जन्तु°
 + √शो>शि>शित- नि°, सम°
 शिशान- सम°
 शोणित- अस्थि°, १त्वच°°, मांस°,
 मांस°, मेद्व°°, शुक्र°
 शोधिन-शोध्य √शुप्(परि.) द.
 + शोधनञि- गणेश°°
 शोषक-शोषित- √शुप्(परि.) द.
 श्रम(<>रम)शान-नवचार°, महत्°
 श्रमश्रु- केरा°, हिरस्य°
 श्रम्याम->रश्या(म)>मा- नीलो-
 त्पलदल°

श्याम-लला- राजन्°, लघु°, १शुक°
 श्यामाक- उदुम्बर°
 श्यामाक-तण्डुल- वटकाणिका°
 + श्यामायु->श्यामायु-वन- मधु-
 रावन°°
 √श्रै>श्री>श्रीत- अति°, २मुग-
 ंध°
 शैस्य- एकान्त°
 शीत-उत्तर- अतिभयंकरज्वर°°
 शीत-ल- अन्तर्°, आ°, सु°, २मु-
 गन्ध°
 + शीतल-ता- अन्तर्°
 श्रप्->श्र(प्)>द, √घा>श्रद्-द-
 घत्-, श्रद्-दधान- ४अ°
 श्रद्-घा- ४अ°, उप°, तपस्°, २भ-
 क्रि°, यद्°
 १श्राद्ध- अष्टन्°, आतिथ्य°,
 आत्मन्°, श्रष्टि°, २गया°, दिव्य°,
 १देव°, १नव°, १पर°, पित्रु°,
 भूत°, मनुष्य°, २मातृ°
 + श्राद्ध-मित्र- ४अ°
 √श्रम्,>श्राच् आ°, परि°, वि°
 श्रम- अति°, आ°, ऐहिकमुष्मिक-
 सुख°, नेत्र°, योग्याभ्यासकृत°,
 वि°, सुख°
 + श्रमिक->श्रमिका(क-अ)प-
 हमार- अतिभयङ्करज्वर°°
 + १श्रमण- + श्रम्य वि°
 श्रान्त- परि°, वि°
 + श्रान्ति- अत्यन्तकीर्ति°, वि°
 २श्रामण- ४अ°, ५न°
 १श्रावण->श्रावणा->१श्रावण-
 √श्रा>१श्र>श्रन्- ४अ°
 श्राव-श्रावक-, २श्रावण-, श्रावधि-
 वृ-, श्राव्य- √श्रु(परि.) द.
 √श्रि अधि°, अपा°, आ°, उद्°,
 उप°, उपनि°, उपा°, परि°, प्र°,
 प्रति°, प्रत्या°, व्यपा°, सम°,

समा°, समुद्°, समुपा°
 + श्रय- अपा°, आ°, उपा°, प्र°,
 व्यपा°, समु°, समुद्°
 श्रित- अधि°, आ°, उद्°, उदरा-
 वाच्, उपा°, परि°, श्रुति°, समु°,
 समा°, समुद्°, समुपा°
 + श्रिय अधि°, आ°, व्यपा°, समा°
 + १श्री- उप°
 + √श्रिप्,>श्रे(प)>या- आ°
 २श्री- ४अ°, अकषादि°, भागत°,
 इन्द्रजाल°, इन्द्रियार्थ°, गुण°,
 चतुरश्रवेदिका°, २जव°, २त्रिपु-
 रा°, द्वार°, ३भद्र°, १भाव°,
 १श्रुयु°, १भोग°, महत्°, यौवन°,
 शमोदित°, श्रीराधा°, सर्व°
 + श्री(क)- ६स°
 श्री-कर- १राम°°
 श्री-कृष्ण- हरि°
 श्री-बीज- प्रणव°, प्रणवसंपुटित°
 श्री-राधारसिकानन्द->श्रीराधा-
 रसिकानन्द-रूप- ओंकारावि-
 ...प°
 श्रीराधारसिकानन्द-विनोद-
 श्री-वत्स- कौस्तुभ°, १शङ्ख°
 + श्री-शृङ्खल- तुलसी°°
 श्री>+श्री-कार->श्रीकारिच्- एका-
 रिन्°°
 √श्रु,>२श्र, श्रावि, श्रुश्रप् अतु°,
 आ°, उप°, परि°, प्रति°, प्रत्या°,
 वि°, मम्°
 श्रुश्र्वग- गुरु°
 श्रुश्र्व(प)>या- ४अ°, गुरु°, २दाद-
 श्रवण°, यथोपयोग°
 श्रुश्रु- ४अ°, परि°
 श्रुवच्- ४अ°
 + श्रव- अतु°
 २श्रवण- ४अ°, उपदेश, १कषा°,
 कृषि(हेष्टि), तदनाद°, दूर°,

a) व्यु? ! b) व्यु? =पार्यदक्शिये-। c) व्यु. अर्थरच ! ! d) गप्. (५८३) यनि. संख्यानिर्देशः द. ।

e) गप्. (५८४) यनि. संख्यानिर्देशः द. । f) गप्. (५८४) °कन्द° इत्यत्र यनि. शोधः द. ।

दूरस्थ^०, दृष्ट^०, देहेन्द्रियनिग्रह^०,
पापपुण्य...व^०, पितृ^०, २पुरा-
ण^०, वेदान्त^०, शब्द^०, सहज^०,
समीकरण^०, सिद्धान्त^०, सूक्ष्म^०
+श्रवण-प्राण-कर्षण- पुराण-
न्या...ति^०

+श्रवण-ध्यान- भगवत्कथा^०
श्रवणीय- ४अ^०

३श्रवण- अनन्त^०, दिस्^०
+२श्रावण- प्रातिभ^०

श्रवस- उवैस्^०, उपम^०, त्राज^०, वृद्ध^०,
सामन्^०

+श्राव- सम्^०

+श्रावक- सर्वचैतन्यभोग^०

+श्रावयितृ- सम्^०

श्रावित- प्रत्या^०

+श्राव्य- अधिगत^०

+श्रुत्- प्रति^०

श्रुत- ४अ^०, १जन^०, बहु^०, यथा^०, वि^०

१श्रुति- अस्म्यादिगति^०, अद्वैत^०, अ-
नाश्रुति^०, कार्यत्व^०, कृति^०, गति^०,
गुणसाधारण्य^०, जन्मन्^०, तत्का-
र्यत्व^०, तत्फल^०, तद्^०, तदन्नमय-
त्व^०, त्रिमुपार्ण^०, देवतालय^०, निर्गु-
णादि^०, निर्मागतत्व^०, भेद^०, प्राच्^०,
सुक्ति^०, यज्ञादि^०, विमुक्ति^०, वैशि-
ष्ट्य^०, सर्व^०, सर्वोत्कर्ष^०, सादिसं-
सार^०, साम्य^०

श्रौत- ४अ^०

+श्राव(ति-म)र्थ- सर्व^०

२श्रुति- ४अ^०, अल^०, अराज्ञादि^०,
आप्त^०, शार्दकारित्व^०, दूर^०, १फ-
स^०, महार^०

३श्रुति- गो^०, मत्त^०, गर्वनस्^०,
१श्राव्यन्त^०

श्रोत्र- ४अ^०

श्रोत्र- ४अ^०, १पृ^०, पशुप^०, १त्र-
पू^०, १पृच्^०, पाणि^०, पाद^०,
श्रुतिर्षी^०, श्रुतिर्षा^०, सुत^०

१वाच्^०, २वाम^०
श्रेणि, गी- अचल^०, अत्यन्तसुख^०,
अत्युन्नत^०, अष्टम^०, असिपन्नवन^०,
आनन्दाचल^०, एकादशान्^०, कद-
म्बकुञ्ज^०, कुञ्ज^०, २कुञ्जान्तर^०, च-
तुर्द^०, चतुर्थ^०, तृतीय^०, १दान^०,
द्वादश^०, द्वादशान्^०, द्वितीय^०, नव-
म^०, निकुञ्ज^०, पञ्चम^०, प्रथम^०, वृन्दा-
वन^०, अमरपि^०, हंस^०, मध्य^०, रत्न^०,
रथ^०, वानीर^०, विद्रुम^०, पष्ट^०, सप्त-
म^०, सुवर्णालवाल^०

श्रेणि-संचार- परंपरा^०

श्रेयस्- १अहम्^०, महर्^०

+श्रेयस- निस्^०

श्रेया- √श्रिप् (परि.) द.

श्रेष्ठ- १कपि^०, १कुप^०, द्विज^०, वृष^०,
शृद्धसु^०, मन्मविद्^०, ३भरत^०, सु-
नि^०, २शु^०

+श्रोणि^०- सु^०

श्रोत्रिय- ४अ^०, महत्^०

श्लक्ष्ण- मृदु^०

√शिल्प् आ^०, उप^०, उपसम्^०, वि^०,
सम्^०

शिल्प- भा^०, उपसम्^०

+शिल्प्य सम्^०

+श्लेष- ४अ^०, वि^०, सम्^०

+श्लेषण- वि^०

श्लेष्मन्- अरिय^०, गल^०, मूत्र^०,
घात^०

+श्लेष्म-साक्षिपातिक-ज्वर^०-
अतिभयंकरज्वर^०

श्लेष्मा(स्म-घ)त->श्लेष्मात-
क- भास^०

श्लोक- दशान्^०, २पुण्य^०, मन्त्ररहस्य^०,
पाक्यार्थ^०, गु^०

श्रयन्- धूम^०

श्रान- दुष्टघोट^०

+श्र-पञ्चहाल-गो-शर- भा^०

+श्र-मांस- ९स^०

√श्वस्, >श्रासि आ^०, उद्^०, नि^०,
निस्^०, प्र^०, वि^०, विनि^०, समा^०
श्वसत्- उद्^०
+श्वसित- नि^०, निस्^०
+श्वसितव्य- प्र^०
+श्वस्त- भा^०
+श्वस्य निस्^०
श्वस- उद्^०, एक^०, १जित^०, दुःख^०,
नि^०, निस्^०, प्रचारण^०, वि^०,
विनि^०, समा^०
+श्वसया- आ^०
+श्वसित- उद्^०

√श्वि उद्^०

√श्वित् >श्यासि > १श्वेत-> २श्वेत-

शुभ्र^०, २हरित^०

श्वेत-केजु- २संबर्तक^०

+श्वेता(त-श्र)श्र^०- मन्मके...ल^०

श्वेता(त-श्र)श्वतर- कठवल्ली^०

प

पण्ड- कदम्ब^०, १पद्म^०
पप्- चतुर^०, द्वि^०, सप्त^०
+पट्-क- १अज्ञ^०, अरि^०, द्वि^०, ना-
मन्^०, भूमि^०, १वर्ण^०, रामादि^०
+पट्क गण- गुरु^०
२पट्-कोण- त्रिकोण^०
१पट्-चक्र- मूलाधारादि^०
+पट्चक्र-जागति- निरञ्जनहा-
नाथ^०
+पट्-प्रिनाद्-भक्षर- ह्यमीव^०
२पट्-पद, री- भूतहृत्पद्म^०, हृत्पद्म^०
१पट्-भक्षर- १राम^०
२पट्-भक्षर- श्रीरामचन्द्र^०, ९स^०
+पट्भक्षर-मन्त्र- रामहृत्पण^०, वि-
ष्णुवृषिह^०, सुदर्शन^०
१पट्-मन्त्र- नैवेद्यभू...गुरुप^०, महा-
पाक्य^०, ९स^०
+पट्-गुण- रामदमादि^०

१) पृ १ द. १) २) = तदास्त्वोऽभिपद्-विरोध- १) घया. द. = अविविरोध-, उगविपद्विरोध- ।

पद्-रस- विविध°
 +पद्-वर्ग- भरि°
 पण्-मास->पाण्मासिक->+पा-
 ण्मासिक-उत्तर^१- अतिभयंकर-
 ज्वर°°
 पण्-सुर- -खः मना १,५°; -खाप
 मउ ३,५. [°ख- चतुर्मुख°°]
 पटि- २पटिका°, चतुर°, परःशत°
 पट- १मनम्°
 +पट-स्वर- ध्योमन्°
 पोटनश्न- घमलादि°, सङ्घ°
 पोट(श)>नी- -नी मना
 ९,५७°
 पोटभा-क- कामाकर्षिण्यादि°,
 कामायाकर्षिणी°
 +पोटभा-पदार्थ- प्रमाणादि°
 +पोटभा-वाक्- कामाकर्षिण्या-
 दि°
 पोटभा(श-अ)धर-मन्त्र- धी-
 कृष्णमुद्रर्शन°
 पो(ड)>दा- १अङ्ग°, १दुर्ग°, इंस°
 +/सि(>ष्टी)ब् नि°
 +ष्टीय->ष्टीव-माजव- भोजन°
 +ष्टीवम- नि°

स

२स>सः>सोहम् अजपा°
 +सं/यज्>सं-याज- पत्नी°
 सं/यम्(यमने)>सं-यत्- ४अ°
 सं-यम- आत्मन्°, इन्द्रिय°, इन्द्रिय-
 ग्राम°, कायरूप°, कायाकारा°,
 प्रहणख...त्वं°, चित°, तत्रवि-
 भाग°, तद्°, ३तार°, पर्माधर्म°,
 परायी...र्थ°, परिष्कामत्रय°,
 प्राण°, संबन्ध°, स्थूलसू...त्वं°,
 स्वार्थ्य°, स्वार्थ°
 सं-यमन- प्राण°

+सायमन- नम् की २,५१°
 +सं-याम- प्राण°
 सं/या>+सं-यान- राय°
 सं/यु(मिथये)>सं-युत्- ४अ°,
 २अधर°, अनुस्वार°, अशोप-
 गण°, अशोपामर°, अष्टाङ्ग°,
 अष्टावरण°, आभ्रमञ्जरि°, गण°,
 गुणपञ्चक°, घटुरण्डक°, वतु-
 शोभक°, १तार°, निधयज्ञान°,
 निश्चलज्ञान°, पत्नीपुत्रादि°,
 पूर्वोक्तज्ञान°, फणित्°, भस्मन्°,
 माशाद्वादशन°, संतोष°, समस्त-
 कुल°, सर्वलक्षण°, सर्वस्वजन°,
 सीतालक्ष्मण°, सु°, सूत्र°
 सं/युज्>योजि>सं-युक्त- आति°
 अनन्तराक्षि°, अनेकभुज°, कटुति-
 क्क...रस°, कुलत्रिशक°, क्रीडावि-
 हार°, गजारवरथ°, गोजत्रय्य°,
 घृतसूपादि°, ज्ञानसंहार° प्रभु.
 सं-योग- ४अ°, आसनमनश्चतुर्भु°,
 आसनभेद°, कर्मफल°, क्षेत्रवेज-
 न°, जलशोकर°, तद्°, दुःख°,
 परावर°, युधि°, १मनु°, मातृपितृ°,
 रस°, विषवेन्द्रिय°, शरीर°, शिवो-
 मातीर्थ°, शुक्रशोणित°, सर्वात्म-
 न्°, खर°
 +सं-योग्य->संयोग्य-ता- सुख°
 +सं-योजिन्- केसरभृग...खा°
 +सं-योग्य- ४अ°
 सं/रन्त्>+सं-रक्षक- आरमविद्या°
 १सं-रक्षण- आत्मन्°, जन्तु°
 सं/रम्>+म्>संरभावहे वृ ६,
 ४, २०°
 सं-रम्भ- अशेर°, कृत्रिम°
 सं/राज्>+सं-राजित-वेशधृ...भा°
 सं/रुध्>+सं-रोध- प्राण°, वास-
 नाप्राण°, संविद्°
 +सं-रोधन- प्राण°

+सं/लक्ष्>सं-लक्ष्य- सर्ववेदान्त°
 सं/लग्>सं-लग्न- ब्रह्मप्रणव°, सु°
 सं/ली>+सं-लीन- प्रणवकृ...न°
 सं-वत्सर- चन्द्र°°, दिन°°, पक्ष°
 प्रधान°, शत°; सङ्घ°
 सांवासरिक->+सांवासरिक-
 उत्तर^१- अतिभयंकरज्वर°°
 +सांवासर-रात्रो(त्र-उ)वित-, +सांवा-
 स्वर-वासिन्-, +सांवासर-वेदि-
 न्- ४अ°
 +सांवासर(र-आ)दि-काल-वि-
 भाग- ५न°
 सं/वद्>सं-वाद- गुहशिष्य°
 +सं-वादि(न्)>नी- लोकपाल°
 +संवादि-गुण- रूपशो...रस°
 सं/वल्>सं-वल्कित- १अङ्ग°, अत्य-
 न्तक्रीडाश्रान्ति°, अनन्यभाव...
 स्य°, अनुराग°, आनन्द°, भालि-
 हनतु...मुख°, औंकारवीज°, १का-
 म°, खाद्येपेय...क°, गुण° प्रभु.
 सं/वस्(निवासे)>+सं-वास- गत्य-
 न्त°
 सं/वह्, >वाहि>+सं-वाहन-
 गात्र°
 +सं-वाहिन- रूपशोभासं...भाष°
 +सं-वेग- तीव्र°
 सं/विद्(ज्ञाने)>सं-विद्- ४अ°,
 १अङ्ग°, अद्वितीयपर°, अन्तःशय°
 चित°, २जल°, जाड्य°, निरुपा-
 धिक°, निर्वाण°, १पर° प्रवितल...
 र्थ°, १भाव°, भूमि°, शुद्ध°, स्वर्प°,
 स्व°, इर्षामर्ष°
 +संविद्(क)- हुत°
 सं-वित्ति- ४अ°, एकान्त°, गलित°,
 चिदावा...दान°, १वदान°, शुद्ध-
 सम्मान°, सुख°, स्व°
 १सं-विदान- ४अ°

अ) 'पठः' इति JC. । b) मा ८, २६ । c) 'सायमन्नम्' इति निवा., अञ्जा., 'संयमनम्' इति शांथा. (४, ५) च पा. ? यनि. शोचः ऋ. (तु. आन.) । d) 'संभवाव' इति शौ १४, २, ५१ (उ. टि. वैप २ यस्वा.) ।

सं-वेदन- ४अ°, त्यक्त°, प्रचार°, स्वयुक्ति°, हृदयान्तव्योमान्°
 सं-वेद्य- सर्व°, सु°
 सं/विद्(लाभे) > २सं-विदान- -नः मउ ९, ४५°
 सं-ची(वि/इ(गती)) सं...वि...एति मना १, ३५°
 सं/वृ(आच्छादने) > सं-वृत्- ४अ°, अष्टपात्र°, २पट°, ३पट°, वायुमण्डल°, १पोडशापत्र°
 सं-वृत्ति- कल्पित°
 सं/वृत्(वधा.) > १सं-वर्त- > १सं-वर्त-क- महत्°
 २सं-वर्त- > २सं-वर्त-क- श्वेतकेतु°
 सं/वृष्ट > वंशधि° + सं-वर्धित- मद्°
 सं-वेग- सं/विज्(परि.) द्र.
 सं-व्या(वि/आ)प > + सं-व्या(वि-आ)-स- इक्षुरस°
 सं/शम > सं-शान्त- सर्वसंकल्प°
 + सं-शान्ति- गाढनामित्, संवेच्छाजाल°, प्राणायामित्°
 सं/शी > सं-शय- ४अ°, भासा°, छिन्न°, ज्ञानसंछिन्न°, निष्°, व्याधि°, सर्व°
 + संशय-वत्- ४अ°
 सं/शुष् > + सं-शुद्धि- १भाव°, सरव°
 + सं-शोधन- नाडी°
 सं/शो > शा > सं शित- प्राण°
 सं/श्रि > सं-श्रय- ४अ°, अर्थपात्रादि°, विद्यामन्त्रैक°, वैष्णव°
 सं/शु > + सं-श्रय- वायु°
 सं/श्लिष् > + सं-श्लेष- ४अ°
 सं/सञ्ज > + सं-सक्त- ४अ°, एतत्कोशचतुष्टय°, एतत्कोशाश्रय°, एतत्कोशाश्रय°, कुट्टम्ब°, गोपीचन्दन°, विविक्तदेश°
 सं-सक्ति- ४अ°
 + सं/सद् > सं-सद्- १जन°, १प्र-कृत°, व्याख्याययन°, श्वेदेवर्षि°

१एत्°
 सं/सिष् > सं-सिद्ध- ४अ°, अनादि°, अनेकजन्मन्°, आद्यनादि-रूप°, चैतन्यमात्र°, देशका... भाव°, २योग°, पृष्ठकर्मन्°, राधन°, मु°, रवप्रकाशक°, स्वभाव°
 सं-सिद्धि- १इष्ट°, २योग°
 सांसिद्धिक- ऊपमन्°
 सं/सृ > सं-सार- अनादि°, १असत्° कलि°, गर्भजन्मजरामरण°, गर्भ-जन्ममरण°, गर्भजन्मव्या...शु°, दुःख°, नाना°, महत्°, १मृत्यु°, सर्व°, सादि°
 + संसार-कलन- शान्त°
 संसार-चक्र- असार°
 संसार-दुःख- सर्व°
 + संसार-धर्मन्- अन्वारोपित°
 संसार-यन्धन- जन्मन्°, धूत°
 संसार-सुख-दुःख-विषय- अमित्य°
 + संसारा(र-आ)वरण- पितृनात्...ता°
 सं-सृति- अन्तःकरण°, सर्व°
 सं/सृज् > सं-सर्ग- ४अ°, असत्सं...न°, एतद्रायुदशक°, १विष°, १सत्°
 सं/सेव् > + सं-सेवित- सुख°
 सं-सेव्य- २सुर°
 सं-स्/कृ > सं-स्कार- अनेकजन्मन्°, अन्म°, अरोप°, कृत°, गर्भाधा-नादि°, चतुश्चकारिणात्, चत्वारिणात्, २जामत्°, पञ्चन्°, परिणाम°, मन्त्र°, २वेद°, व्युत्थान-निरोध°, संस्थोपासनकाल°, २सृ-ति°, हरि°
 सं-स्कृत- ४अ°, कायन्°, पञ्चसंस्कार°, २°, सु°
 सं/स्तु > सं-स्वाव- प्रतिश्रा°, स्वर्ग°
 + सं-स्तुति- आत्मन्°

+ सं-स्तुत्य- मन्त्र°
 सं/स्था > स्थापि > १सं-स्थ, स्था- अरण्यकमल°, १पटी°, पुरमध्य°, १मन्त्रन्°, महिषोत्तमात्र°, स्वचित्त-विल°, स्वर्णसिंहा...ल°
 २सं(स्थ) > स्था- मद्°, आत्मन्°, ईश°, दल°, मृदत्°, सर्व°
 सं-स्थान- अद्वैत°, तदभ्यन्तरा°, नाभिमण्डल° विहार°, २हस्त°
 + सं-स्थापन- धर्म°
 सं-स्थान्य सु°
 सं-स्थित- अग्नि°, अनेकाकार°, ऊर्वाधस°, एकान्त°, करण°, चित्तत्व°, नाभिमण्डल°, निर्याधि°, पद्मायासन°, बुद्धिसत्त्व... र्व°, धूमध्य°, २योग°, रक्षाम्बुज°, १विरव°, हज्जामि...दि°
 सं-स्थिति- २जामत्°
 सं/स्पृश > सं-स्पृश- १अङ्ग°, मृश-काष्ठ°, प्राण°, १ब्रह्मन्°
 + सं-स्पृशन- नाडी°
 + सं-स्पृशत्- + सं-स्पृश्य- ४अ°
 सं-स्पृष्ट- ४अ°, शिवामिधूम°
 सं/स्मृ > सं-स्मरत्- -रन् गोउ १५°
 सं/हन्(वधा.) > + सं-हति- त्वहमां-स...स्थि°, मांसाद्यक्प्...स्थि°
 + सं-हनन- वज्र°
 + सं-ध- अनन्त°, अवनिपाल°, ऋ-पि°, गन्धर्वय°...द°, जीव°, १ज्ञान°, भूतविशेष°, महर्षिसिद्ध°, सिद्ध°, २सुर°
 सं-घात- ४अ°, अस्थिचर्म° फ°, इन्द्रिय°, एतत्, देहादि°, पवमान-पा...वि°, मनोबु...चित्त°, मोह-जालक°, विराम्भृ...फ°
 संहारिन्- नाउ. द्र.
 सं/ह् > सं-हरण- १पाप°, सर्वदुष्ट-दौत्यदानव°
 सं-हर्ष- सर्व°

a) 'सरराणः' इति मा ८, ३६ (एतद्वत् गृ. [४८५५]) शोधः द्र. । b) मा ८, ३६ (एतद्वत् गृ. [४८५५]) शोधः द्र. । c) गृ. (४८५८) यति. संख्यानदेशः द्र. । d) ध्यान. धया. ।

सं-हार- उत्पत्ति^०, १ज्ञान^०, नि-
 शेष^०, २प्लुत^०, भीषण^०, सर्व^०,
 सृष्टि^०, स्थिति^०
 *सं-हारिन्- +सं-हृत्- सर्व^०
 सं-कल- संपराज^०...दि^०
 *सकल-कित्त्वप- भूत^०, भूतप्रेत-
 ...दि^०
 *सकल-दिग्-अन्तर- महाविद्या-
 सं...त^०
 *सकल-भुवन- स्यादि^०
 *सकलै(ल-ए)पणा- प्रशान्त^०
 सं-काम-> *सकाम-कर्मन्- निशि-
 तानिगमोदित^०
 संकाश- तद्^०, १वद्^०, प्रजापति^०
 संकृत् ४अ^०
 संकु- मोदक^०
 संख-स्त्री- अनेक^०, एक^०, क्रीडा^०,
 नाना^०, १शुद्ध^०, २रमणानन्द^०,
 रास^०, ४ज्ञातव्य^०, २भी^०, २व^०
 संखी-मात्र- अत्यन्त^०
 संखी-समूह- ६स^०
 संख्य- सुधीव^०
 *सं-गोत्र- ऋष्याश्रिय^०, सांख्यायन^०
 सं-कट^०- अति^०, संसार^०
 सं/कल> *सं-कलन- २कल^०
 *सं/काश> सं-काश- अग्नि^०, अ-
 तसीपुण^०, अभिनवजलद^०, अ-
 दृतोदधि^०, कदलीपुष्प^०, कोटि-
 सूर्यप्रकाश^०, कोटिपूर्वप्रकाशवै-
 भव^०, चन्द्र^०, चन्द्रमण्डल^०, तप्त-
 काजन^०, दीप^०, नीलजीमूत^०,
 भानुमण्डल^०, विद्रुमद्रुम^०, शुद्ध-
 रफटिक^०, संपूर्णचन्द्र^०, सहस्रा-
 दित्य^०, धिन्द्रजात^०, १सूर्य^०
 सं/कित्(ज्ञाने)> सं-केत- महाली-
 ला^०
 *सं-क-वट- वंशीवट^०
 *संकेत-वन^०- मधुरावन^०
 सं/कुप्> १सं-कीच- कण्ठ^०

*संकोच-विक्रास- यद्^०
 सं-कोचन- कण्ठ^०, लिप्त^०
 संकुल- अनन्तचिन्म...ल^०, अनन्त-
 यु...ल^०, अनन्तानि...ल^०, अ-
 नन्तोपनि...ल^०, कलोलवन^०,
 धर्म^०
 *संकुलि> संकुलित- अतिस्ने-
 ह^०, निर्भरसेचनरस^०
 सं/कृप्> सं-कर्षण- अनिदद^०,
 वायुदेव^०
 सं/कृ, > किर> सं-कर- ३वर्ण^०,
 २स्थिति^०
 सांक्य- उत्पत्ति^०
 सं-कीर्ण- ४अ^०
 सं/कृत्> कीर्ति> सं-कीर्षण- नाम-
 न^०
 सं/कल्प(<कृप्)> कल्प, कल्पि>
 सं-कल्प- ४अ^०, आज्ञामयमं...
 रा^०, अशिमाय...द^०, अप्यवसाय^०
 अशेष^०, असंन्यस्त^०, अहमित्या-
 दि^०, आकाश^०, कर्तृत्वायहंकार^०,
 १काम^०, क्रेवलमोक्षापेश^०, १ज्ञा-
 न^०, १द्, दिवमनु...काम^०, नाना^०,
 निःशेष^०, निस्^०, पित्रुमातृ...रण^०,
 १भगवत्^०, यमाद्यष्टाङ्गयोग^०,
 वर्णाधर्मधर्मकर्मन्^०, १वाच्^०,
 विषय^०, शब्दादिविषय^०, शान्त^०,
 १शिव^०, शुभाशुभ^०, १सत्य^०,
 समस्ततष्ट^०, सर्व^०, सिद्ध^०, स्व^०,
 *संकल-ज- जन्मज^०
 *संकल्प-जाल- सर्व^०
 सं-कल्पन-> संकल्पनीय- ४अ^०
 सं-कलित- यथा^०
 *सं-कलस- ४अ^०
 सं/क्रम> सं-क्रमण- प्राण^०,
 बहु^०
 *सं-क्रान्त- ४अ^०, मोहभानुज^०
 सं/क्लि(चये)> सं-क्षय- मोह^०, विक-
 ल्प^०, संकल्प^०, सर्वोशा^०

सं/क्षिप> सं-क्षेप- विप्लुककर्मन्^०
 सं/क्षुभ्> *सं-क्षोभण-, *सं-क्षो-
 भिन्-, णी- सर्व^०
 सं/ख्या> १-सं-ख्य- गृह,
 ४८६४ द.
 ३सं-ख्य, ख्या^०- ४अ^०, कर्मि^०, एक^०
 एकविराति^०, एतद्^०, २कति^०,
 चतुर्मुखपत्र...दि^०, तत्पु^०, ति-
 ल^०, दिश^०, द्वि^०, नामन्^०, पत्र^०,
 पलाशाङ्कुर^०, प्रति^०, यावत्^०, शत^०
 पप्^०, पौडशाचतु...शत^०, सप्त^०,
 सप्तर्षि...द्र^०, सहस्र^०
 १सांख्य-> *सांख्या-
 (ख्य-अ)न्त- लोकायतादि^०
 २सांख्य- कर्मन्^०
 *संख्या-(क)- ४अ^०, एकत्रि-
 शत^०, एकोनविराति^०, २कति^०,
 चतुर्विंशति^०, दशन्^०, द्वात्रिंशत्^०,
 षोडशन्^०
 सं-ख्यात- ४अ^०, चतुर्विंशति^०, रस^०,
 सहस्रदल^०
 *सं-ख्यान- केसर^०, गुण^०, तत्फल^०,
 तद्दीप^०, तद्दीज^०, तद्गजु^०, तद्गो-
 मन्^०, पत्र^०, २पल^०
 *सं-ख्येय- ४अ^०
 सं/गम्> सं-गत- ४अ^०, १ब्रह्मन्^०,
 मूलप्रकृति^०, सु^०
 सं-गति- अविवेकप्रकृति^०, महा-
 पा...ष्ट^०, ६स^०, समयाचार^०,
 साधु^०
 सं-गम- ४अ^०, ग्रामस्वर^०, ग्राह-
 ग्राहक^०, त्रिवेणी^०, दीप्तितोदधि^०,
 भरमामि^०, भार^०, रजरत्नी^०,
 शाकार्थ^०, साधु^०, स्वप्न^०
 *संगमो(म-उ)पवेत-ताम्युल-
 सुगन्ध-रस- सखी^०
 सं/ग्रह> सं-ग्रह- उदरमात्र^०, कर्म-
 न^०, १ममस^०, मन्वत्तन्नादि^०,
 लोक^०, शिष्य^०, उर्वसिद्धान्त^०

सं-ग्रहण- प्राण^०, प्रमत्तचयंशान्ति^०
 *सं-ग्राह- १भाव^०
 सं/गै>गा>सं-गीषमान- उन्मद-
 को...^०
 संघ- सं/हर (परि.) द.
 सं/घट्ट>*सं-घटित- प्रिदशमु...
 रत्न^०
 √सच्, सघते मउ ९, ४५^०
 सं/चर्>सं-चरत्- ४अ^०
 *सं-चरित- अनन्यभा...भा^०,
 १रति^०, रूपशोभा^०
 सं-चार- अत्यन्तगुप्तश्रेणि^०, पर-
 २पर^०, परापर^०, प्राह्न^०, मय्य^०,
 वायु^०, विविध^०, वृत्त^०, श्रेणि^०,
 सर्वलोक^०
 *सं-चारक- सकल^०
 सं-धारिन्- प्राण^०
 सं/चि>सं-चय- अर्थ^०, कर्मन्^०,
 प्रनिय^०, नाडि^०, १भोग^०, महा-
 विद्या^०, शिष्य^०
 सं-चित- पशोक्त...मन्^०, प्रारब्ध^०
 सं/चिद्व>सं-छिन्न- १ज्ञान^०
 √सञ्च अति^०, अतिप्र^०, अनु^०, आ^०,
 उपा^०, नि^०, प्र^०, व्यति^०, सम^०,
 समा^०
 सक- ४अ^०, अति^०, अनु^०, अन्यो-
 न्य^०, आ^०, गुह^०, नि^०, प्र^०, व्यति^०,
 सम^०, समा^०
 *संक्ति- ४अ^०, अतिप्र^०, आ^०, प्र^०,
 सम^०
 सङ्ग- ४अ^०, १अज्ञ^०, १अज्ञान^०,
 अतिप्र^०, अन्तर^०, अत्यन्त^०,
 अशेष^०, अशेषलो...स्त^०, आ^०,
 आत्मन्^०, उपा^०, कर्मन्^०, वात्^०,
 गुण^०, १जित^०, १ज्ञान^०, तद्गुह^०,
 व्युष्ठा^०, त्यक्त^०, देशका...न्तर^०,
 निस्^०, पुत्रदारादि^०, प्र^०, प्रथम^०,
 बहिस्^०, मात्रा^०, १गुह^०, १रति^०,
 २प्रज^०, १शिव^०, ६स^०, १सत्^०,
 सर्व^०, सुख^०, रत्नी^०

*सङ्ग-दोष- १जित^०
 *सङ्ग-रहित-स्मरण- १यय्यति-
 रिहवस्तु^०
 सङ्गिन्- ४अ^०, कालिन्दीज... ल^०
 *सङ्गन- ४अ^०
 सं/जन्>जा>सं-जात- चित्तमा-
 लिन्य^०, प्रदानान्दाधु^०, मनोविक-
 ल्य^०, विप्रबाहुस्व^०, शीतांगु^०, प्र-
 म^०, संवाराण्य^०
 सं/जीव>सं-जीवन- सर्व^०
 सं/क्षा>सं-ज्ञा- अचर^०, अमि^०,
 अप्यारत^०, अनन्त^०, १अन्ध^०,
 अमृततर^०, अष्टाक्षर^०, आगस्त्य^०,
 आरामन्^०, इष्टानिष्टशब्द^०, ईश्वर^०,
 कर्मन्^०, उदान^०, २काल^०, ३गाय-
 त्र^०, ताष^०, तुरीय^०, धर्म^०, पाद^०,
 १पुरुष^०, पुरुषोत्तम^०, पशुग्र^०, प्रा-
 ण^०, १प्रहन्^०, महारौरव^०, मुक्ति-
 मण्डप^०, मूलप्रकृति^०, २योग^०,
 १रत्न^०, लय^०, ३वर्ण^०, वशीकार^०,
 वायु^०, विष्णु^०, ५म^०, २समान^०,
 सरिगमपधनिस^०, सर्व^०, सहज^०,
 सुखदुःख^०, सुखदुःखमोह^०, १शो-
 म^०
 *संज्ञ(क)- अन्वयोदि^०, अव्यक्त^०,
 आतुर^०, २स्वैचरी>रि^०, जीव^०,
 निमेषोन्मेष^०, १पुरुष^०, प्राण^०,
 महारौरव^०, मायाज्ञानादि^०, सत्य-
 वस्तु^०
 *संज्ञिन्- संज्ञा^०
 सं/ज्वल>*सं-ज्वा(ल)>ज्वा-
 प्रज्वल^०
 १सत्->१सच्-चिद्-आनन्द->
 सच्चिदानन्दा(न्द-श्रो)धमक-
 १प्रहन्^०
 २सत्-चिद्-आनन्द- अखण्डलक्ष-
 ण^०, निस्तस्माद्द्वैत...य^०
 *सच्-चिद्-उल्का- पवनाव...
 लन^०

सम्-जन- शाश्र^०
 सत्/कृ(करणे)>सत्-कार- दीर्घ-
 काल^०
 - सत्-कृत- ४अ^०, मन्त्र^०
 सत्-तम- १पुरु^०, द्विज^०, वृत्^०,
 १ब्राह्मण^०, २भरत^०, मुनि^०
 सत्-वा- कला^०, २काल^०, चित^०,
 निरयशुद्धि...न्द^०, परमेस्वर^०,
 परात्मन्^०, १प्रहन्^०, महन्^०, रज्जु^०,
 लोल^०, वस्तु^०
 *सत्ता(क)- प्रात^०
 सत्ता-मात्र- १केवल^०, १भगवत्^०
 *सत्-त्राय- चूर्णाधार^०
 सत्-पुत्र- १धन^०
 सत्-मह- यथासंभव^०
 सद्-भाचार- १धुति^०, १बाधमोह^०
 सद्-भासक- स्वप्रकाश^०
 *सद्-भात्मन्- नमा पदं ४^०.
 सद्-गन्ध-गु(त्क)>टिका- यावत्^०
 सद्-गुह->*सद्गुरु(रु-उ)पासन-
 देहेन्द्रियनिग्रह^०
 सद्-भाव- अनेकजीव^०, अन्तःकर-
 ण^०, भ्रमन्^०
 *सद्भावा(व-श्र)भाव- वेप^०
 सन्-मात्र- १केवल^०, शुद्ध^०, सत्त्व-
 स्वरूप^०, सर्वविधियान^०
 सन्तु- √सद् (परि.) द.
 सत्त्व- ४अ^०, आयुस्^०, तद्वर्त्तस्थ^०,
 धर्म^०, १नित्य^०, पीठ^०, पूर्वसि-
 ङ्घ^०, बुद्धि^०, भूत^०, महन्^०, रजस्^०,
 १विशुद्ध^०, शीत^०, शुद्ध^०, सर्व^०,
 सात्त्विक- दृढतर^०, शुद्ध^०, सौर^०
 *सत्त्व-चमत्कार- हृद^०
 *सत्त्व-मय- गुणातीत^०
 सत्त्वो(व-श्र)दा- भूत^०
 *सत्त्वो(व-श्र)ग्रह- १सम^०
 १सत्य- स्वम् अशि ७०^०. [१त्य-
 ४अ^०, अर्हिसा^०, आत्मन्^०, १द्वैत^०,
 १नित्य^०, नीलमन्^०, प्रहन्चर्य^०,
 १सत्य-

a) मा ८, ३६ । b) वपा. द. =भाप., पूर्वतविशेष- । c) अख्या । सं. अया. । d) अख्या । शै. अया. ।

भास्, शुद्ध, १ सत्य]
 सत्य-व्य- जगत, देहादि, स्वस्-
 रु... गत्
 सत्य-लोक- आ, तपोलोक, भूलो-
 क
 सत्य-स्वरूप- अद्वितीय
 सत्या(त्य-श्वा)मक- अद्वैत
 २-३ सत्य- गद्, ५८७३ द.
 *क्षस(त्य>)स्या^१ - १ नन्द, विम-
 ला
 *५ स(त्य>)स्या^१ - विराजा
 ✓ सद्, > सीद्, सादि अनुवि, अव,
 - आ, उद्, उप, उपनि, उपोप,
 नि, परि, प्र, वि, समा, संप्र
 *सद्- उप
 स(त्वि>)प्र- प्रम् पहं १५०: ६.
 [प्र- २ द्वादशवर्ष, महत्,
 १ शिव, ज्ञान]
 *सद्- अन्तरिक्ष, उप, उपनि,
 १ श्रुत, गर्त, २ चम्पू, दिवि,
 दुरोण, स्र, परि, वृषिबी,
 २ वर, वेदि, व्योमन्, शुचि
 *सद्- उप, दुरा
 *सदन- अनन्तराज, १ गुहा, १ दे-
 व, पचवाण, १ नन्द, भक्तजि-
 ह्वाप्र, होत्र
 सधन्- १ मन, वगुवेव
 सन्न- अनुवि, आ, उद्, उप,
 नि, प्र, संप्र
 *सन्नवत्- प्र
 *साद- प्र, प्र>प्र, वि, संप्र
 *सादान- उद्, प्र
 २ सादन^१
 *सादयन्- अव
 *सादित- आ
 *सादिन्- प्र, वि
 *साद्य आ, प्र, सना

*सीदत्- उप, वि
 *संदिक्- आ, प्र
 संदा पहं ४^१; जाद ३, ६, १^१; गौड
 १५^१
 १ सदा(दा-श्वा)नन्द- अद्वैत
 *सदानन्दे-पूर्ण- -ज: भा २८!
 *सदा(दा-श्वा)नन्दा(न्द-श्वा)सुभ-
 वै(व-ए)क-गोचर- सहदि-
 भात
 सदा(दा-श्वा)श्वास- आत्ममन्त्र
 *सदा-मोद-दाविन्- श्रीवृन्दावन
 सदा-वासकोडा-प्रकट
 *सदा-विहार- किशोरन... यस्
 सदा-शिव- १ नन्द, २ श्री
 स-दृश- अय:शलाका, आकारा,
 कालानल, गगन, गोपाल,
 तद्, निवातदीप, प्रावणचन्द्रके-
 टि, प्रवालाहुर, मद्, रयामल
 रवन्, सुवर्ण, सुपुत्र
 सदृशी- नवद्वार
 सादृश्य- अद्वैतगत
 सद्यस्(>):>सद्यो-जात- तत्पुरु-
 प, २ मत्स्य
 स-धर्म->साधर्म्य- प्रारब्धसं...र्मन्
 *स-धर्मन्- विद्या
 ✓ सन् > सनि- १ धन, वाज
 सनक- तारद
 सनत् > सनत्-कुमार- सनक
 सनव-सुजात- सनक
 सनन्दन- सनक
 सना > १ सना-तन-
 २ सनातन- सनक
 *सनातना(न-श्वा)घ- सनत्सुजातादि
 सं/तन् > सं-तत्- विरवाह
 सं-तत्- ४ अ, १ ज्ञान, इ:ख,
 प्राण, शाल, संसार, सुख
 सं/तप् > सं-ताप- ब्रह्मायैव...

ज, २ भव
 सं/तुप् > सं-तुष्ट- यद्दृष्टालाभ,
 स्मरणमात्र
 सं-तुष्टि- देवता, यद्दृष्टालाभ
 सं-तोप- तपस्, दोषा, शीत,
 सदा, सर्व, स्वाध्याय
 सं/त् > तारि > सं-तारण- कलि
 सं/त्यज् > सं-त्यक्त- अन्तर्, सय-
 स्, सु, स्वाध्यायक
 *सं-त्याग- वासनामात्र
 *सं-त्यागिन्- ध्येव
 *सं/त्रस् > सं-त्रास- कालारि
 सं/द्विद् > सं-द्विग्ध- भस्मन्
 २ सं-देह- गत, परमानन्द, विश्रा-
 न्त, शान्त, सर्व
 *सं-देह-द्वैतात्म्य- शान्त
 *सं/दुप् > दूयि > सं-दूयित- १ देव
 सं/धा > सं-हि(त>)ता- १ पुरुष,
 महत्, यजुर्वेद
 सं-धान- प्रणव, ब्रह्मप्रणव, १ स-
 ल्य, १ स्वरूप
 सं-धि- अति, अद्योत्तर, ऋतु,
 तद्, तर्ल, तुन्द, त्रि, पाद,
 संधि, सर्व
 *संधि-काल- ४ युग
 *संधि-ग्रह^१- अरिष्टकारिणी
 *संधि-स्थान- तद्
 १ सं(ध्य>)ध्या- कृष्णपत्निक,
 गुरीय, त्रि
 १ स-हित- अकारोका...त्रा, अन्य-
 प्रतिष्ठा, अपानबहि, उमा,
 ऋग्वेद, कामादि, कुङ्कुमादि,
 १ ज्ञान, ज्ञानवैराग्य, तद्, तदा-
 सना, तारादि, १ त्रिवर्ण, देव-
 ताप्रत्यधिदेवता, द्रव्यमन्त्रस्थ-
 लादि, द्रव्यमन्त्रस्थानादि, दि-
 त्रिवर्ण, नियति, बहूपान,

a) व्यु. १ = सखीविशेष, शक्तिविशेष - । b) व्यु. १ = नाडीविशेष - । c) निसा. अया. । d) भावे इत् ।
 e) गद्. (५८७३) यनि. संख्यानिर्देश: द. । f) अन्वा: सं. अया. । g) अन्वा: यो, अया. । h) आन. अया. ।
 i) तानि. अया. । j) गद्. (५८७४) °दाम्पक° इत्यत्र यनि. सोष: द. । k) = ५ त ।

माया, सुक्ति, मीन्त्रीक्रीपान, ४रमा, रूपतन्मात्र, वस्त्रावरस-
तरी, वराभ...रुष्ट, १विज्ञान, संस्कार, सामवेद, हुंकद्रुति
+साहित्य- तद्, धर्म, सं-
गीत

सं/धु>धारि> +सं-धारण-प्राण, शरीर

१संध्या- सं/धा (परि.) द्र.
+३सं(ध्य)>ध्या- सत्या

सं/धै>ध्या> २सं(ध्य)>ध्या-
ध्यान, प्रातर्

संध्या-क्रिया- १प्रदान

+संध्या-वन्दन- सायम्

सञ्ज-सन्नयत्- /सद् (परि.) द्र.

+सं-नि/काशु>संनि-काश- शर-
द्वज

सं-नि/कृप्> +संनि-कृष्ट- ४अ

सं-नि/धा>संनि-धान- गम्भीर-
नाभिहृद, तद्

संनि-धि- आत्मन्, आदित्य,

शुक्, तद्, देवता, प्रसिमा, ब्रह्मा-

त्मन्, मद्, महादेवी, श्रीराम

सांनिध्य- १चित्, अपाकुसुम,

देवता, मद्, श्रीराम

संनि-हित- ४अ

सं-नि/पत् > संनि-पात- > सांनि-
पातिक- श्लेष्मन्

+सं-नि/भा>संनि-भ, भा- अपा-

नादित्य, आक्रोश, कालानुल,

कोश, गवैत्यर्जन्य, चम्पकातसी-

...सार, अपाचन्धूक, तरुणादि-

त्य, नीलजीमूत, प्रवालाङ्कुर,

चन्धूक, शुद्धरुद्रिक, सीदाम-

नी, रुद्रिक, स्वप्नसंगम

सं-न्य(नि/अ)स्(लेपरे)>संन्य-

(नि-अ)स्त- ४अ, २योग

संन्या(नि-अ)स- ४अनिमित्त, अ-

न्दर, आतुर, उत्कमणकाल,

उपाधिभेद, कर्मन्, केन, म-

म, ३घोर, १ज्ञान, ज्ञानवैराग्य,

निमित्त, परम, नुरीयातीत,

वैराग्य, सर्वसंकल्प

संन्या(नि-अ)सिन्- १नित्य, पूर्व,

विद्वस्, विविदिपा, सर्व, सर्व-

संकल्प

सप्तन- ४अ

+सं-पचन- नम् १योट ८३?

सप्तन्- चतुर्, त्रिचतुर्, द्वि,

पद्यन्, पप्

सप्त-क- त्वगधातु, १बीज, भूमि-

का, मुखबीज

+सप्त-भि(का)>द्व- ह्यत्व मउ३, ६.

सप्त-भि- एक, चतुर्, द्वि

सप्त-दशन्- सप्तन्

१सप्त-द्वीप- महाभुजपरिवारित,

६स, ससागराम्बस्

१सप्त-धातु- त्वयादि

+सप्त-भूमिक- मखिमय

सप्त-म- रशिवि

+सप्त-द्वार- ध्रेणी

+सप्त-मुख- चतुर्मुख

+सप्त-शङ्क- अच्छिद्रित

सप्ता(स-अ)शर- १राम

स-प्रसृत्तिक-

स-फल->साफल्य- मन्त्र

सभा- एक

सभ्य- आहवनीय

१सप्त- ४अ, अग्नि, अत्यारचया...

नि, अथर्वशिरः...पक, आर्चिस्

अधेचन्द्र, अथर्ववेध, १भस्त,

इन्द्रगोप, उयद्वास्वत् प्रभ.

साम्य- गुण, जरामर...दि,

तद्, देह, भोगमात्र, वस्तु,

व्योमन्, शिला, शुद्धि, सवा-

दिगुण, सर्व

सम-ता- २शेचरी, महत्, विरोध-

तत्त्व

सम-त्य- दिवानक

सम-रस- शारवताविज्ञान

१समा(न-अ)भिष्म-

२सम-

समा- योडशन्

समप्र->समप्र-वदीकृत- १शु-

तानन्द

+समप्र(म-अ)वयव- २चरण

सम(म्/अ)च्>सम्य(मि-अ)च्->

+सम्यक्-प्रबुद्ध- शान्त

सम्यग्-अर्थ- समवलोकित

समजस- ४अ

+सामजस्य- ४अ, उभय

सम(म्/अ)न्(शास्त्रे), >आनि>

१सम्-आन- -ने मनात्, ६९, १९.

[न- प्राण, व्यान]

+सम्-आनवितस्य- ४अ

+सम्-अनु/शुह>समनु-गृहीत-

वृन्दावनेशरी

+सम्-अनु/भू>समनु-भव- नि-

दासंभा...युक्

१समन्त- तद्

२समन्त- सनक

सम्-अन्वि[नु/इ(गती)]>समन्वि-

(नु-इ)त- अव्यक्त, अहंकार,

कौतूहल, चेतन, छिद्र, तत्त्वत-

न्तु, तालत्रय, धामत्रय, श्शु-

त्साह, नानाभक्ति, पद्मसोतस्,

पदकम

सम्-अभ्य(मि/अ)स्(लेपरे)>स-

मभ्य(मि-अ)स्वन्- १कृपा

a) द्युः! = शक्तिविशेष- । b) वज्र. द्र. = धाप., चतुर्धाभ्रम-, उपनिषद्विशेष- प्रभ. । e) = ६ स ।
d) 'स्वपचनः' इति श्रव्याः । (व. 'स्वपचनम्' इति निता.) यनि. शोधः द्र. । e) गप्. (४८८१) 'प्रस्' इत्यत्र यनि.
शोधः द्र. । f) गप्. (४८८२) यनि. संख्यानिर्देशः द्र. । g) तैय्याया १०, ६९. (एतदनु गप्. [४८८३]) शोधः द्र. ।
h) गप्. (४८८४) यनि. संख्यानिर्देशः द्र. । i) द्युः! = अग्निविशेष- ।

सम(म्/अ)र्ध् > सम्-अर्ध- ४अ^०,
चतन^०, नियामन^०, सर्वसंहार^०,
सामर्थ्य-चित्त^०, नानाविधि...ण^०,
निमोयोगेयस्य...शक्ति^०, भस्मन^०,
लौकिकवैदिक^०, विद्या^०, सभे^०,
सर्वापभक्षण^०, स्व^०
सम(म्/अ)र्ध् > वि^० > सम्-अर्धण-
आत्मन^०, मह्य^०
सम्-अर्धे[व/इ(गती)] > समवा-
(व-अ)य-पयभूत^०
समवे(व-इ)त-कैलिक्रपति^०
सम(म्/अ)श(व्याती) > सम्-अधि-
अनन्तचिदादित्य^०, अनन्तचिदि-
लासविभूति^०, अनन्तचिदिलास-
विभूतिविशेष^०, अनन्तदिव्यतेज-
पर्वत^०, अनन्तदिव्या...क्ति^०,
अनन्तपरमपुर्ति^०, अनन्तपरमान-
न्दविभूति^०, अनन्तब्रह्मगन्धाका-
र^०, अनन्तब्रह्मज्ञेयोरारि^०, अन-
न्तब्रह्मानन्द^० प्रभु.
सम(म्/अ)श(सेपणे) > सम्-अस्त-
कारेण्डिरि^०
+समस्त-क्षेत्र-अनित्यसं...पय^०
+समस्त-जन्म-शारा-परिगलित^०
+समस्त-देव-वनिता-दासीभूत^०
+समस्त-पाप-समस्तपा...नादि^०
+समस्ते(स्त-ई)हा-अन्तःशान्त^०
सम्-आकुल-प्रहरण^०, ज्ञानथान^०,
रिगज्वाला^०
सम्-आ/कृ(कारणे) > समा-कृत-
नानानाडी^०
+सम्-आ/कृ > किर > समा-की-
र्ण-चतु.पीठ^०
+सम्-आ/क्ति > समा-क्षिप्त-
प्राणपान^०
सम्-आ/ख्या > +समा-कय, हया-
१६५^०, १मुखासन^०
सम्-आ/गम् > समा-गम-भूत^०,
१५५^०

सम्-आ/चर > समा-चार-२भक्त^०
सर्व^०, २सौम्य^०
सम्-आ/धा > समा-धान-स्थिर^०
समा-धि-एक^०, चिर^०, जगन्^०,
१नित्य^०, निरन्तर^०, निर्विकल्प^०,
पुरप्रय...नित^०, प्राणायाम^०,
ब्रह्मकर्मन^०, २यम^०, धन्वा^०,
संप्रसात^०, सांख्ययोग^०, सुपुति^०
समा-हित-४अ^०, सर्व^०, सु^०
२समान-आत्मन^०, उभयपक्ष^०, तडि-
स्वोटि^०, तादृश्योमन^०, शशुमित्र^०
सामान्य-४अ^०, अभिचार^०,
अर्थ^०, १आदि^०, २आप्ति^०, गति^०,
गुण^०, १चित^०, २मान^०, लय^०,
वटवीज^०, सत्ता^०, सर्व^०
+सामान्य(क)-, +सामा-
न्य-कौटि-सत्ता^०
+सामान्य-विशेषण-४अ^०
+समाना(न-अ)धिकरण-स्व^०
+सम्-आ/नन्द > समा-नन्द-अ-
नानन्द^०
समानयितव्य-समन्(परि.) इ.
समा(म्/आ)र्ध् > सम्-आशि-
तद्^०, परिणामकम^०
सम्-आप्य ४अ^०
सम्-आ/पद् > समा-पत्ति-अन-
न्त^०, लघुवृत्त^०
सम्-आ/धन् > +समा-बद्ध-भुज-
गवित^०
सम्-आ/भिद् > २समा-भिद्य-
गुरुवाक्य^०
१समाभिन्न-१तम-(परि.) इ.
+सम्-आ/यु(निधने) > समा-युत-
चतुर्लिंग^०, नावविन्दु^०
सम्-आ/युज् > समा-युक्त-अर्थ-
मात्रा^०, अष्टाक्षर^०, युद्योनि^०,
गुरुमहि^०, १चक^०, चतुष्कला^०,
चतुष्पथ^०, प्राणपान^०, विन्दु-
नाद^०, सुकाहार^०, नियालोक^०,

शय्यासन^०, स्थानोद्देश^०
+समा-योग-जातीपुण्य^०, दरव^०,
प्राणपान^०, शिवशक्ति^०
सम्-आ/रम्भ > म्भे(वधा.) > स-
मा-रम्भ-अन्तर्लीन^०, आचार^०
सम्-आ/रह् > समा-रुद-उद-
यादि^०
सम्-आ/लोक > +समा-लोक-
सम्बन्धान^०
सम्-आ/विश > समा-विष्ट-जरा-
शोक^०, सर्व^०, सुल^०
सम्-आ/वृ(व्याच्छादने) > समा-
वृत्त-कपिचक्रुक्त^०, कर्मयोग^०,
मोहशाल^०, योगमाया^०, स्वधर्म-
नि...विद्^०
सम्-आ/धि > +समा-अध-भा-
रुड^०, निचापान^०, १रित^०, सर्व-
सिद्धि^०
समा-श्रित-कल्पवृक्षकाम"निधि^०,
महायष्टि^०
समा(म्/धा)स > सम्-आसीन-
तदन्वन्तर^०, निरतिशयदि...न्तर^०
निरतिशयान...र^०, पर्यङ्क^०, मन्त्र-
हे...न्तर^०, भूभुक्स्वर्लोक^०
सम्-आ/स्था > स्थापि > +समा-
स्थान्य जाद ३, ६, २^०
सम्-आ/ह् > समा-हार-गुण^०
+समा-हृति-सर्पेन्द्रिय^०
+सम्-आ/ह् > समा-हृद-परहस^०
समि(म्/इ(गती)) > १सम्-अय-
एक^०, कल्पारम्भ^०, २जाति^०,
ज्ञानसंगति^०, देहवपान^०, वटु^०
समि(म्/इ)ध्, ध् > सम्-इह-
४अ^०, सु^०
सम्-इध्-समी^०, ताप्य^०
समी(म्/इ)त् > +सम्-ईक्षित-
द्वादशांगुल^०
सम्-इह ४अ^०
समीप-गुरुकदेश^०, तद्^०, १देव^०,

पितृ°, प्राणायाम°, सद्गुरु°,
सर्वेन्दुगु...ख°, स्वाभिम्...रु°
समीप्य- देवता°, नियरथल°,
मद्°, सर्वे°, सालोक्य°
समी(म्/ई)र>सम्-ईर- धीर°
*समी(म्/ई)द्>सम्-ईहित-
१असा°
सम्-उ(द>)च्/छि (<प्रि)>स-
मुच्-छित- तदर्थाधे°, पञ्चहस्त°
सम्-उ(द>)ज्/ज्वल्>समुज्-
ज्वल- रेफाकर°, लक्षस्ये°
सम्-उत्था(द>त्/स्या)>*समुत्-
थ- इच्छादिप°, संगालापु°
समुत्-थित- वीणादरठ°, सर्वचि-
न्ता°
सम्-उ(द>)त्/पद्>समुत्-पद्-
ओपासन°, पुरायस्थल°, मृष्ट-
वीत्र°, समिदधि°, सधि°
सम्-उद्/गम्>*समुद्-ग->
*समु(द्रक>)द्रिका- सु°
*सम्-उद्/भिद्>समुद्-भेद्-
द्वैताद्वैत°
सम्-उद्/भू>समुद्-भव- अक्षर°,
अग्निहोत्र°, कर्मदोष°, कर्मन्°, ज-
तु°, जीवात्म "त्मन्", सृष्ट्यासक्त°,
देह°, नाद°, प्राणायाम° प्रभृ.
समुद्-भूत- अग्निहोत्र°, गुणत्रय°,
गुणत्रय°, तापत्रय°, देह°, द्वैता-
द्वैत°, सञ्जदसद°, सम्बन्धन्ध°
*सम्-उद्/यम् (यमने)>समुद्-
यम- रंरण°
*सम्-उद्/युज>समुद्-योग-
मिच्छाटन°
समुद्- अमन्त°, अमन्तस्क...रु°,
अमितामन्द°, आनन्द°, क्षीर°,
चतुर्द°, हया°, दुःखरत्न°, दौष°,
१निरतिशयानन्द° प्रभृ.
*समुद्-राज- क्षीर°
सम्(म्/ऊ)द्(वहने)>सम्-उह-

केत°, चोर°, रमणानन्दरारी°,
सक्षी°
सम्(म्/श्च)प्>सम्-क्षय- प्राण°,
शान्ति°
सम्-क्षयि- ४अ°, आशिम°, गुप्त°
*सम्क्षयादि-श्रानन्द- सर्वे°
सम्(म्-था/इ(गती))>समे(मा-इ)-
त- क्रीडा°, सद्धमी°, रत्नाला°,
शतमार्गा°
*समो(म्-आ-उ)पे[प/इ(गती)]>
समोपे(प-इ)ग- प्रतीहार°
सं/पत्(गती)>सं-पात- जलभू-
मीन्दु°, तद्°, यावत्°, रशत्र°
सं/पद्>सं-पत्ति- अनन्तमुक्ष°, अ-
नादि...दि°, अर्ध°, केलि°, रजल°
१शान°, नानाजल...रु°, प्रेमन्°,
१प्रेमानन्द°, १फल°, १मद्गन्°,
मतिविज्ञान°, यौवन°, रतिसुख°,
महाप्रलय°, वैराग्य°, शमादिपद्-
क°, सय°, सस्य°, सुख°, स्वाप्यय°
सं-पद्- असाररस°, काय°, द्रव्य°,
धनधान्यादि°, १पुरय°, महत्°,
रतिसुख°, १रमण°, सर्वे°, सुख°
सं-पद्- अतितरश्रेष्ठ°, अमानित्वा-
दि°, एवंचक्षण°, कर्मभक्तिज्ञा-
न°, चतुर्धत्वा...र°, ज्ञानवैराग्य°,
दिव्यल्लोभोग°, पञ्चकृत्य°, पीता-
लंकार°, प्रसाद° प्रभृ.
*सं-पाद- रस°
*सं-पादक- सर्वाभीष्ट°
*सं-पादिन्- क्रीडा°
सं-पाय सु°
सं-परि/त्यज्>*सं-परि-रवाग-
२वासना°, संवेद्य°
सं/पुद्>सं-पुद्- ऊर्वे°, कयाल°,
भायड°, सुवर्षे°
सं-पुदित- नामद्वय°, प्रणव°, प्रणव-
श्रीबीज°, व्याहृतिशिरसु°, शिव-
शक्ति°

सं/पुप्>*सं-पुष्ट- शिवभक्ति°
सं/पूज>जि>सं-पूज सु°
सं/पृच्>सं-पर्क- १काम°, राश्र-
सञ्जन°, सञ्जन°
सं/पू>पुद्, परि>सं-परित- दुर°
सं-पूर्ण- अक्षराम°, योगाद्द्रव्य°,
रत्न°, वैराग्यनील°, सर्वे°, सर्वत्रय-
...दि°, सर्वलक्षण°, सर्वलक्षण-
ज्ञानररण°, सर्वान°, सर्वोपयय°,
सु°, स्मित°
*संपूर्ण-भावा(प-श्च)भाव-
विहीन- अचल°
सं-पूर्वमाण- अमुररर°
सं-प्र/क्षा>सं-प्र-ज्ञात- ४अ°
*सं-प्रति/पद्>सं-प्रति-पत्ति-
मात्रा°
सं-प्र/द्वा>सं-प्र-द्राय- आनन्दवा-
रि°, कारी°, कीटवारि°, भूरि-
वारि°, भोगवारि°, यया°, ६स°,
१सत्°
*सं-प्र/मुष्>*सं-प्र-मोप- ४अ°
सं-प्र/युल्>सं-प्र-योग- अनिष्ट°,
इष्टदेवता°, विषय°
सं-प्रा(प्र/था)प्>संप्रा(प्र-था)स-
४अ°
*संप्रा(प्र-था)सि- तरव°, पद°,
१फल°, स्रुतकद्वय°
सं/प्री>*सं-प्रीति- १शिव°
सं/प्लु>*सं-प्लु- अवधूतादि°,
भूत°
सं/यन्च्>सं-यन्- ४अ°, तद्द्वार-
मिति°, सु°
सं-यन्ध- ४अ°, २अक्षु°, अप्यात्म°,
अन्तःकरण°, अन्योन्य°, अहं-
कार°, कर्मदायाद°, प्राणप्राहक°,
तद्दृष्टि°, दृश्यदर्शन° प्रभृ.
सं-यन्धिन्- केवलपरमात्मन्°,
केवलपरमेस्वर°
सं/वाच>सं-वाच- ४अ°

a) यत्र. द. । b) धा. अर्थः ।

सं/बुध् > सं-बोध- अस्वएडान-
न्द°, जन्मकथंता°
सं-बोधन- आत्मन्°
सं/भाप् > सं-भाषण- ४अ°, १अ-
सव°, पतित°, १पशु°, शूद्रक्षीप-
...क्या°
सं/भिद् > सं-भिन्न- अन्तःकरण°
सं-भेद- ४अ°
सं/भुज् > सं-भुञ्ज- > सं/भुञ्ज् >
संभुञ्जमान°-
सं-भोग- आनन्द°, एतद्°, १रति°,
रमणानन्दसुख°, रग्मा°, रस°,
राजक्षी°, सुख°
संभोग-सुख- आद्यनादि°
सं-भोग्य- सुख°
सं/भू > भावि > सं-भव- ४अ°, अं-
श°, अकाराक्षर°, अज्ञत्व°, अनन्त-
सुख°, अनुभव°, अनुमान°, अने-
कजाति°, अनेकदेह°, अन्न° प्रसृ.
सं-भवत्- ४अ°
सं-भावित- आत्मन्°, जुद्धघोरि-
...र°, निद्रा°, १रति°
सं-भूत- अकाराक्षर°, १अज्ञान°,
अज्ञानार्थ°, अविवातर°, उका-
राक्षर°, एतरसंभोग°, १अकार°,
कर्मन्°, कारखत्रय°, तद्°, नाग-
दन्तादि°, परस्पर°, मकाराक्षर°,
वंशतालानादि°
सं-भूति- ४अ°
सं/भृ > सं-भरण- २महावीर°
सं-भार- ओषधि°
सं-भृत्- अन्तःकरण°, मकार°
सं/भ्रम् > सं-भ्रम- हरय°, ६स°,
सर्वसंकल्प°
सं/मन् > सं-मत- आर्य°

सं/मा(माने) > सं-मित- आत्मन्°,
कल्पार्थ°, लघुन°, वाच्यार्थ°,
२वेद°
सं/मिल् > सं-मेलन- आद्यन्त-
ग्रह°
सं/मील् > सं-मीलन- महामाया°
सं-मुख- तद्°, शिवालोकन°
सं/मुद् > मोहि > सं-मूढ- ४अ°,
गुण°, धर्म°
सं-मोह- ४अ°, १अज्ञान°, १घन°
१सं-मोहन- सर्व°
२सं-मोहन- भूत°
सं-मोहित- कामका...ता°, निगूढ-
मान°
सं-मोहिन्, नी- नगरपु...नी°, सर्व°
सं/सृज् > सं-मात्रे(न) > नी- पश्य°
सम्/राज् > सम्-राज् > साध्या-
ज्य- अति°, अनन्तदिव्या...द्या°,
अपरमहाविद्या°, अपारत्रक्षविद्या°,
महत्°, महानरक°, १मोक्ष°,
२योग°, सकल°
संसाध्याज्य-चिन्तामणि- निरसद्वा-
नन्दमोक्ष°
सं-सृज् > सासृज्य- गणेश°, तद्°,
देवता°, नारायण°, मद्°, विष्णु°,
१शिव°, श्रीमन्नारायण°, श्रीमहा-
विष्णु°, श्रीविष्णु°, सालोक्य°
१सर- चतुर°, नि°, दि°
२सर- सरत्- √स (परि.) द.
सं/सरत् > आत्म°
२सरत् > ला°
१सरस्- १ज्ञान°, पावन°, महत्°,
सृत्तलुणा°
सरो-ज- चम्पक°
सरो-रह- १हृद्°

*सरो-चर- मानस°
२सरस्- > सरस्-व(त्) > ती- .ती
मना २, ४२° १°. [°नी- अनि-
रह°, गान्धारी°, पूषा°, महत्°,
२श्री°]
सारस्वत- संपद्°
*सारस्वती-रहस्य!!!- कठवली°°
स-रस- १रमण°
सरिगमपधनिस- गपु. ४८५२ द.
सरित्- २वासना°
सरोरूप- √रूप (परि.) द.
१सर-रूप- प्रकृति°, स्वप्नमाया°
सारूप्य- केवलमन्त्र...प्यु°, देव-
ता°, नारायण°, पुराकल्पि...
प्यु°, मद्°, इति°, सालोक्य°
संजत°, सज्जन°, सज्जीवितव्य- √सृज्
(परि.) द.
संपण- संपत्- √सृप् (परि.) द.
सर्पि- √सृप् द.
सर्वे, र्धा- वैमू धे ३, १५९°, -वैश्य
भा २९°, -वर्गः नाप १५१:२०°;
-वर्त्त जाभा २२°. [°वै- ४अ°,
एतद्°, प्रहमएडल°, चित्तादि°]
*सर्व-सह- -हा आध्र ४.
*सर्व-किया- लुगा°
*सर्व-हेडा-कडमल- निरस्त°
सर्व-मत- -सः ससा ५९१:१°.
सर्व-जन- सर्वजन°°
सर्व-ज्ञ- निरतिराय°°
सर्वज्ञ-ता- ४अ°
सर्वज्ञ(ज्ञ-आ)दि-दशक- ६स°
सर्व-ज्ञान- नम् प्रवि १°.
सर्व-नन्त्र- सर्वमन्त्र°°
सर्व-तस(>) वृ ६, ४, २३३°.
सर्वतो-मुख- ४अ°, अति°

a) गपु. (४८५४) 'सं-भुञ्जमान-' इत्यत्र यनि. शोषः द.। b) गपु. (४८५६) यनि. संख्यानिर्देशः द.।
c) व्यु. ? = इच्छविरोप-। d) गपु. (४८५७) यनि. संख्यानिर्देशः द.। e) सकृत् तैश्चा १०, ४०, १। अथंयत्र 'मानुषी'
इति खि १०, १५१, २; 'मनुष्यजा' इति तैश्चा १०, ४१, १ (एतदुत्त गपु. [४८५७] शोषः द.)। f) = तदा-
ख्योपनिषद्-विरोप-। g) ष्ट १०, १०, २ (दु. डि. वैप१ यस्या.)। h) तान्नि. अया.। i) अस्याः सं. अया.।
j) अस्याः सौ. अया.। k) उप कर्तरि कृत्। l) अयान. अया.। m) ष्ट ५, ७८, ७।

सर्व-त्र नाप १९९:३.
 +सर्वत्रिक- ४अ°
 सर्व-दोष- पहामिप...दि°
 सर्व-द्रुष्ट- जगत्°
 सर्व-नियन्त्र- निरतिशय°
 +सर्व-नेत्र- हरि°
 +सर्व-परिमह- त्यक्त°
 +सर्व-पहव- सर्वमन्त्र°
 १सर्व-पात°-
 +२सर्व-पात- --००श लां २१४:
 १६:१.
 सर्व-अपन्न- अनादि°
 +सर्व-प्रिया(य-अ)प्रिय- त्यक्त°
 सर्व-भय- सार्थकालिक°
 सर्व-भाव- चित्तादि°
 सर्व-भूमि>सर्वभूमि- --ऐरावत°
 +सर्व-मन्त्र-यन्त्र-तन्त्र- सकल-
 सुरापुर°
 सर्व-मय- आनन्दमय°
 +सर्व-यन्त्र- सर्वयन्त्र°
 सर्व-रोग- गण्डपित्त...दि°, वात-
 नाडीगत°
 सर्व-वश-कर(र)>री->सर्ववश-
 करी-मुद्रा--द्रया त्रिता२,५३?।
 सर्व-विद्या- सर्वकोटि°
 १सर्व-शक्ति- निमेषोन्मेष...हादि°
 २सर्व-शक्ति- निरतिशय°
 +सर्व-शूल-अक्षयल°°, दृष्टिशूल°°
 +सर्व-संविन्-न्यास- ६स°
 +सर्व-संवेद्य- संयान्त°
 सर्व-संसार- फोषेप्या...त्यक्त°
 +सर्व-संकल्प- उच्छिन्न°, प्रशान्त°
 संशान्त°, संन्यस्त°
 +सर्व-संक्षोभिषया(शी-आ)दि-

दशक- ६स°
 +सर्व-संक्षोभिषया(शी-आ)दि-
 द्विसप्तक- ६ग°
 सर्व-सार- कठवल्ली°
 सर्व-सिद्धि-प्रदा(द-आ)दि-दश-
 क- ६स°
 सर्व-स्व- आनन्दविहार°, चिन्ता°,
 धर्म°
 +सर्व-देतु- सर्वप्रज्ञति°
 सर्वा(र्व-श)क्त- फाय°, कुन्दुमारण्य°
 भरमसंदिग्ध°, भरमोद्धृत°, ह-
 दासन° *रुठ°
 सर्वा(र्व-श)क्षण- चिन्त्रमयीति°
 +सर्वा(र्व-श)ज्ञान-हा(रक)>रिका-
 --के वपं ३११: ५?।
 सर्वा(र्व-श)मक- सिद्ध°
 सर्वा(र्व-श)मक-सर्वोत्कृष्टत्व°
 +सर्वा(र्व-श)र्ष-साधि(र)>नी-
 महाविद्या°
 +सर्वा(र्व-श)या- अन्त संत्यक्त°
 सर्व(र्व-श)न्त्रय-धर्म- संन्यस्त°
 सर्व(र्व-श)हा- भात°
 सर्वा(र्व-श)पद्रव- परकृत°
 सर्पप- मेरु°
 सलिल- अब्द°, गन्ध°, समुद्र°
 स-लोक-
 सालोक्य- देवता°
 सलोक-ता- १प्रसन्न°
 १-२सव- गप्, ५९ १५ द.
 ३सव- √स(प्रसवे) परि. द.
 १सव्य->२सव्य- ४अ°
 +सव्य-कर्म- आ°
 सव्य-गुल्फ- लंकेन जाद ३, १, १५.
 सव्य-हस्त- विशूल°

स-श्याल- ला द ८।
 +स-संक्ष- अक्षय राप् २, १?।
 √सह (यथा.) उद्, प्र°, वि°, राम°
 १सह- ४अ°, क्लेशा°, दुष्, द्रव्य°,
 राकलदुःख°, सर्वम्°
 +सह- प्र°
 सहमान- ४अ°
 सहस->साहस- धर्म°
 सहिष्णु- ४अ°, द्रव्य°, निन्दामर्ष°
 +सह प्र°
 +सासहि- प्र°, वि°
 +साह- १तु>रा°, सत्रा°
 +१सा(त्)ह- अभिमाति°
 +२साह- उद्, प्र°
 २सह>सह-कारिन्- १मनस्°
 सह-चारि(र)>गी- १भगवत्°
 सह-ज- अजात्य°
 +सह-जीव- काष्ठा°
 +सह-भाव- तद्°
 +सह-भू- विलेप°
 +सह-शिक्षा(ष्टि-आ)दि- तद्°
 सहा(ह-अ)य- ४अ°, उमा°, गुरु°,
 लक्ष्मी°
 +सहा(ह-आ)यक- ४अ°
 +सहा(ह-आ)ध्रियन्- अनवत°
 +सहो(ह-उ)दर- पित्रु°
 +सहकार- एला°
 सहस्र- ४अ°, अग्निष्टोम°, शनन्त°,
 अश्वमेध°, अष्टन°, अष्टोत्तर°,
 उज्ज्वलज्वाला°, एकविंशति°,
 एकादशान्, कल्पकोटि° प्रभृ.
 +साहस्र- द्विशत°, शत°
 सहस्र-किरण- गाय मन्त्र ३, १°.
 सहस्र-प्राकार- २निरतिशयानन्द°

a) अथ्याः सं. अथा. । b) गप्. (५९०४) यनि. संख्यानिर्देशः द्र. । c) तस. । d) °प इति पा. ? यनि. शोषः द्र. । e) बरा. द्र. =विप., दिग्गत्रविशेष- । f) ससर्ववशंकरिणीसु° इति निशा. ? यनि. शोषः द्र. (द्र. अथ्या.) । g) °वंज्ञानं हा° इति पा. ? यनि. शोषः द्र. (एतद्वद् गप्, [५९११] 'सर्वाज्ञान->नम्' इत्यत्र टि. नेव द्र.) । h) अथ्याः यो. अथा. । i) °व्याहः इति निशा. संदि. । j) 'समो यस्य' इति पा. ? यनि. शोषः द्र. (एतद्वद् गप्, [५८८१] 'सम->-म' इत्यत्रापि शोषः द्र.) । k) कर्तारि कर्मणि वा क्त. । l) वैपश् यद. । m) भावे कर्मणि वा क्त. । n) व्यु. ? =आप्त- ।

*सहस्र-शेडशन्- हिमन्तम्भ°
 सहस्रा(स-अ)क्ष- -क्षाय नीर, ४९°.
 *सहस्राक्ष-जिष^{१०}- षट्शोत्र°
 सहापक- ,सहोदर- २सह (परि.) द.
 सहस्र √सह (परि.) द.
 *सहस्र^{१०}- महेन्द्र°
 सांघमन- सं/यम् (यमने) परि. द.
 सा(स-आ)कार- अद्वैताखण्ड...न्य°,
 आनन्द°, उभयात्मक°, त्रिविध°,
 १नित्य°, निरुपाधिक°, ध्रुवविद्या°
 १मुक्त°, विद्या°, विद्यादि°, गोपा-
 धिक°
 रसाक्षि-> रसाक्ष->साक्षिन् शी-
 अवस्थाप्र...व°, अशेष°, सद्°,
 त्रिधामन्°, बुद्धि°, बुद्धितद्बुद्धि°,
 १भोग°, मनआदि°, रस°, वियो-
 ग°, रस्य°, समस्त°, सर्व°, सर्वका-
 मा...ति°, सर्वधीज्ञति°, स्थूल°
 *साक्षि-क- आत्मन्°
 साक्षि-चैतन्य- तदाकारका...
 त्मक°
 साक्षि-रव- साध्य°
 साक्षि-भूत- सर्वधी°
 साक्षात् > साक्षात् √ कृ(करणे) >
 *साक्षात्-करण- संस्कार°
 साक्षात्-कार- अपरोक्ष°, ईश्वर°,
 १शब्दान्°
 सागर- अत्याधर्य°, अमितशोध°, अ-
 मिताप...मत्°, अमृत°, अविया°,
 आनन्द°, आनन्दफल°, आनन्द-
 चित्°, आनन्दाधर्य°, आधर्य°,
 जीर°, गिरि°, गुण°, १चित्°,
 १ज्ञान°, दुःख°, २निरतिशयान-
 न्द°, निरतिशयानन्दाद्युत्सार°,
 १धीज°, ध्रुवानन्दनन्द्°, २भव°
 मृत्युसंसार°, मोह°, ६स°, संसार°
 *नागारा(र-अ)भस- ६४°

*सागर-शीर्ष- शिवविशानानन्द°
 *साचिन्- २राय°
 साद-, १-२सादन-, सादपव-, सादि-
 त-, सादिन्-, साद्य √साद्(परि.) द.
 √साद्य, >धि प्र°
 *साद्य- दुर्ग°
 साधक- कर्मज्ञान°, ज्योतिषागमकर्म-
 न्°, प्र°, १मोक्ष°, सर्वार्थ°, सर्वेष्ट°
 साधक-तम- तद्°
 साधन- ४अ°, अन्यकथा...र्थ°,
 असाध्य°, अर्हिषादि°, कैवल्य°,
 १ज्ञान°, ज्ञानिक°, ज्ञेयिक°, तज्ज्ञान-
 न्°, तद्°, धर्म°, धर्माध...र°, ना-
 स्तित्व°, नित्यत्व°, पिठरखनि...त्र°,
 पूजा°, प्र°, १भोग°, मन्त्रादि°,
 मुक्ति°, १मोक्ष°, मोक्षमार्गिक°,
 मोक्षिक°, यमाद्यष्टाङ्ग°, रसोपधि...
 दि°, वीरहनुमत्साध्य°, ६स°, सर्व-
 च्छासिद्धि°, सिद्ध°, सिद्धि°
 साधित- तद्भाव°
 *साधि(र->)नी- सर्वार्थ°
 साधु- ४अ°
 साध्य- ४अ°, आयास°, गन्धर्व°,
 दुस्°, पुद्गलप्रयत्न°, वीरहनुमत्°,
 ६स°
 साधारण- ४अ°, अन्य°, प्रमाणाप्र-
 माण°, सर्व°
 *साधारण(श-अ)क- यज्ञ°
 *साधारण्य- ४अ°, गुण°
 सान- √सो (परि.) द.
 सानु- रज°
 सा(स-अ)पेक्ष- आत्मप्रयत्न°
 सामञ्जस्य- समजस- (परि.) द.
 सामन्- ४अ°, मृच्च°, २शुद्ध°
 *शिसामन्त^{१०}- १नन्द°
 रसामन्त-
 साय √सो (परि.) द.

१साय^{१०}-> *साया(य-अ)ह-मप्याह°
 २साय- √सो (परि.) द.
 १सार- ४अ°, अक्ष°, अमृत°, एका-
 त्मप्रत्यय°, २घन°, गन्ध°, १धि-
 त्°, तद्गुण°, १सार°, निस्°,
 परमात्मन्°, बुद्धि°, मद्°, मन्त्र°,
 महत्°, स्तम्भ°, २वेद°, १श्रुति°,
 सत्त्व°, समस्तवेदवेदान्त°, सर्व°,
 सर्ववेदान्त°, सर्ववेदान्तसिद्धान्त°,
 सर्वोपनिषद्°, सु°
 *सार-वरा(र-अ)नन्त-प्राकार-
 ब्रह्मसाक्षा...ध°
 सार-भूत- केवलसम्भात्र°, वेदान्त°
 २सार- √सु (परि.) द.
 सारङ्ग- अन्तरङ्ग°, भयप्रसंत°
 १सारण- √सु (परि.) द.
 २सार(ण->)जी^{१०}-
 सारधि- पार्व°, बहि°, १विज्ञान°, सु°
 सारस- १भ्रमर°, १भयूर°, हंस°
 सारित- √सु (परि.) द.
 *सा(स-अ)धार्(ध-अ)कुल- विशात्°
 सार्य √सु (परि.) द.
 सार्वत्रिक- सर्व- (परि.) द.
 १साल- कदम्ब°
 *सालुघ^{१०}- ३शरम°
 १सावित्र- √सु (अभिपवे) परि. द.
 २सावित्र- √सु (प्ररेखे) परि. द.
 सासहि-, साह-, १-२साह- √सद्
 (परि.) द.
 साहस्र- सहस्र- (परि.) द.
 साहित्य- सं/धा (परि.) द.
 √सि(भग्ने) > *सिस्त- ४अ°
 १सेतु- महा°
 सिंह- -हः मउ ३, १५. [°ह- ध्वज°,
 नर°, वृ°, २मत्स्य°, राजन्°,
 मृह्णत्वावद्ध°, २स्वस्तिक°°]
 सिंहा(ह-अ)सन- नम् जाद ३,

a) मा १६, c (तु. टि. वैपश् यस्या.)। b) =मेघनाद-। c) व्यु. ? =पर्वतविशेष-। d) व्यु. ? नैत्र. =सरा-
 (र-आ)जिन्- ? [उप. < √अज् (रि. सं.; वैतु. PW. प्रथ. < √सच्.)]। e) भावे कर्तारि वा कृत्। f) यथा. द. =
 कर्मणि कृत्, देवजातिविशेष-। g) व्यु. ? =गोपविशेष-। h) गम्. (पृ१२३) यनि. संस्थानिर्देशः द.। i) =६स। j) व्यु. !

६, ३°. [°न-दिव्य°, १५घ°, भुवनामार°, रत्न°, वीर°, स्व°, स्वर्ण°, स्वामन्°]
 +सिद्धे(हृद्)न्द्र- वनगतगन्°
 सिक्त(त>)ता- सुगन्धपुष्प°
 ✓सिच्, >च्, सेचि अभि°, आ°, उद्°, उप°, नि°, परि°, प्र°, सम्°
 सिक्त- अभि°, आ°, आहारपान°, २दुग्ध°, जि°
 +सिच्- रेतस्°
 +सिच्य अभि°, प्र°
 सिच्यमान- अभि°, आ°
 +सेक- अभि°, उद्°
 सेचन- उप°, २जल°, हिम°
 +सेचन-रस- निर्भर°
 +सेचित- केशच्छट्टा***र°
 १-२सित- गघ. पृ१९५. द.
 ३सित- ✓सि(बन्धने) परि. द.
 ४सित- ✓सो (परि.) द.
 ✓सिच् अभि°, नि°, उद्°, प्र°, प्रति°, विप्रति°, सम्°
 सिद्ध- ४अ°, अणिमाद्य***शा°, अयवैण्वेद°, अनन्यभजन°, अनादि°, आत्मन्°, उपासा°, ऊर्ध्वान्नाय***न° कार्य°, खेचरी- मन्त्र°, गन्धर्व°, नि°, १नित्य°, पठित°, पूर्वे°, प्र°, प्रति°, मन्त्र°, महर्षि°, २योग°, संकल्प°, १सत्य°, सम्°, संबन्ध°, सर्व°, सर्वप्रमाण°, साधन°, सु°, स्व- तस्°, स्वभाव°
 सिद्ध-लक्ष्मी- महत्°
 +सिद्ध-वस्तु- सक्त्व°
 +सिद्ध-संकरूप- नद्वायैरवर्षाशा°
 +सिद्ध-सर्वात्मक- सरवैरुवरूप°°
 सिद्धा(द्-अ)न्त- अप°, गगन°, नानादर्शन°, नानाश्रयि***ति°, नैरात्म्य°, महत्°, वेदान्तसारभू- त°, वैष्णव°, वैष्णवधर्म°, शास्त्र°

साकार्य°, सर्व°, सर्ववेदान्त°, सर्वशास्त्र°, स्व°
 +सिद्धान्त-रहस्य- राफलये- दशास्त्र°
 सिद्धान्त-श्रयण- तप्य°°
 सिद्धि- द्विः भा. ३०°. [°द्वि- अणिमन्°, अणिमादि°, अ-या- रा°, १अनाहत°, अन्यतर°, अन्य- या°, अपरोक्ष°, अभीष्ट°, अर्चा°, अल्पमूत्र***प° प्रभृ°
 +सिद्धि-स्वरूप- १नित्य°
 +सेध- उद्°, नि°, प्रति°, विप्रति°
 +सेधन- नि°
 सिनीवाली- २राका°
 सिन्दूर- सीमन्त°
 १सिन्धु- अतुम्पा°, २दुग्ध°, मोक्षान- न्देक°, सुख°
 ✓सि(ं)सीष् अतु°, अभि°, सम्°
 सीवि(न्)नी- न्याःजाद३, ६, १°
 +सीम्य सम्°
 स्यूत- अतु°
 सीता- २प्रश्न°
 सीदत्- ✓सद् (परि.) द.
 सीमन्- ४अ°, निस्°, सु°, सौन्दर्य°
 सीम(म-अ)न्त-> +सीमन्त-सि- न्दूर- केशच्छट्टा***त°
 ✓सु(अभिपवे), >सावि अधि°, अभि° आ°, प्र°
 १सवन- अधि°, सुतीय°, जि°, प्रा- तर°, प्रातर्मध्याह्नवृतीय°, १ब्रह्म- न्, मार्षादिन°, १सोम°
 +१सावित्र- अभि°
 १सुत- आ°, प्र°
 ✓सु(प्रसवे) >सुत- अजना°, अहं- कार°, इन्द्रिा°, जाया°, देव- की°, १नरत्°, व-प्या°, १वृषभातु°, व्यास°, १शिव°, सत्यवती°, संपद्°, स्व°
 +सु-कर्ण- शर्प°

+सु-कृत्- वि°
 सु-कृत्- २इष्ट°, जन्मजन्मा***ष्ट°
 सु-कोमल- अति°, जाम्बूनदण्ड***त°, सुवर्णसुगन्ध°
 सुख- ४अ°, भक्षरट°, १अत्°, अज्ञात°, अत्यन्त°, अनन्त°, अन्तर°, अन्य°, अप्रतर्क्य°, अम- नस्क° प्रभृ°
 सौख्य- असत्सुख°, २प्रज्ञा°, संतत°, सर्व°
 सुख-द- अनेकरसात्वाद°, महाकां- डा°
 +सुख-दातृ- प्रतिक्षण°, प्रत्ययरस- वीरुष्°, २रमणानन्द°
 +सुख-दायक-रूप- अत्यन्त°
 सुख-दायिन्- अति°, कुञ्जप्रतिकुञ्ज°
 सुख-दुःख- ४अ°
 +सुख-दुःख-विषय- संसार°
 +सुख-प्रद- विप्रलम्भ°
 +सुख-समृद्धि- अनादि°, आनन्द°, सर्वकाल°
 सुख-संपत्ति- संयोद्यमाद्य***स°, सर्व°
 +सुख-संपद्- संसार°
 +सुखा(ख-आ)नन्द- १सत्°°
 सुखिन्- अत्यन्त°
 १सु-गन्ध- अति°, अन्तर°, जातिष्° र°, तद्°, नाना°, फस्पर°, मणि- लता°, २राग°, वस्त्र°, सु°, सुव- र्ण°, हाटक°
 २सु-गन्ध- अति°, विक्रण°, दिव्य°, संगम°°
 सुगन्ध-रस- अनेक°, नाना°, पक्- फल°
 +सु-गोप्यमान- अगुस्वा***री°
 सु-प्री(वा)व-> +सुप्रीवं-विभी- पण- ६स°
 +सु-घन- १अज्ञान°
 +सुजय- १नन्द°°

a) अश्याः यो. अया. । b) यप्र. द. । c) तान्त्रि. अया. । d) प्रास. । e) व्यु ? ।

सु-हृद्- प्रमदा°
 ✓सु(प्रिरो) आ°, उद्°, परा°, प्र°
 रसव- उद्°
 सचिवृ- ००तः मउ ९, ७५; -तारम्
 मउ ९, ५५. [°वृ- आदित्य°,
 ततद्°, १मद्वान्°, १मित्र°°]
 रसावि(त्र°>)श्री- केन°°
 ✓सु(प्रसवे) प्र°, प्रतिप्र°, संप्र°
 †रसव- प्र°, प्रतिप्र°
 रमूत- प्र°
 सूत-क- रमातृ°, सूत°
 सूति- प्र°
 सुनु- अङ्गना°, दैवतदेव°, सूत्र°, वायु°
 सूकरि- ग्राम°
 सू(सु-उ)क्त- ३एकवर्ष°, जातवेदस°,
 १पुत्र्य°, १दृढ°, २श्री°
 सूक-वाक- रसह°
 सूक्ष्म- -क्षमम् बोधि २, १५५. [°क्षम-
 अति°, दीर्घ°, परम°, महत्°, सु-
 णालतन्त्रु°, हलमा°° वक्°, विवि-
 ध°°, व्यक्त°, सु°, सूक्ष्म°, स्थूल°°]
 सूक्ष्म-तर- अति°, सुदृढ°°
 सूक्ष्म-तस(°) बुद्धि°
 †सूक्ष्म-पर्यन्त- महदादि°
 †सूक्ष्म-भूत- पथन°
 †सूक्ष्म-रेखा-, †सूक्ष्म-वक्ष-
 तद्°
 १सूक्ष्म-चारीर- १व्यष्टि°
 सूक्ष्म-रवर- उन्मदको°°
 १सूक्ष्म(म-अ)ह- अपमीकृतभूतो-
 त्य°, महाभूतोत्थ°
 ✓सु(वि)चि>सूचक- तत्सिद्धि°,
 निवाण°
 सूचन- १मद्वान्°
 सू(वि)>ची-, >सूचि(क)>का-
 १पत्र°
 सूत्र- ४अ°, २अक्ष°, अक्ष°, उपवीतल-

क्षण°, कटि°, रक्षय°, क्षीम°,
 १चिन्°, वि°, भिक्षत्°, दीपि°,
 नवन°, नाडी°, पथन°, १पस°,
 वहित्°, १मद्वान्°, मृणाल°, यस°,
 लिङ्ग°, वस्त्रे°, स्वान्तर°, हंम°
 सूत्र-प्रय- १चिन्°
 †सूत्रा(त्र-आ)क्षमक- विरात्र°
 †सूद्र(हिंसायाम्)>दि नि°
 †सूदन- अरि°, नि°, पीलस्य°,
 रमधु°
 सूप- घृत°
 †सूय- राजन्°
 सूरि- ४अ°
 १सूर्य, स्यां- -यैः मउ ३, ८; -र्याय मउ
 २०, ८१५. [°र्य- अग्नि°°, अरु-
 ण°, आदित्य°°, उद्यत्°, १कोटि°
 चन्द्र°, चित्रादिवर्ण°, २प्रक्ष°°
 प्रोत्तर°, मार्ताण्डादि°°, १मित्र°°,
 लक्ष°, विप्र°, विराजा°, शशिन°,
 १शिव°, २श्री°, १सोम°, १स्वरुप°]
 सौर- २माघव°°, शक्ति°
 †सूर्य-कान्त- पश्चराग°°
 †सूर्य-चक्र- चित्रादिवर्णाखण्ड°
 सूर्य-नारायणे- २श्री°
 सूर्य-मण्डल- पीठ°
 †सूर्यो(यै-अ)ष्ट(ष्ट-अ)धरी-
 मन्त्र- ध्याहृतिशिरः°°य°
 ✓सु, >सारि अनु°, अप°, अपि°,
 अभि°, अव°, उद्°, उप°, निस्°,
 प्र°, प्रति°, वि°, समु°
 †सर- अभितस°, अव°, प्रति°,
 पुरम्°
 सरण- अप°, उप°, प्र°, समु°
 सरणि, शी- अर्थ°, सुपुत्रा°
 †सस- प्र°
 †ससर- अनु°, प्र°, समु°
 †साण- प्र°

†सारित- प्र°, समु°
 †सायं उद्°, प्र°
 †सल- निस्°, प्र°, वि°
 सूति- कृष्णाकृष्णप्र°, प्र°, समु°
 †सूथ्य उप°
 †सूत्वर- अभि°, उप°, प्रति°
 ✓सुज्, >सजि अति°, अभि°, अभि-
 वि°, अव°, उद्°, उप°, वि°,
 समु°, समति°, समुद्°
 संग- उद्°, उप°, कला°, जगत्°°
 दि°, परायण°, १मद्वान्°, भूत°, वि°,
 वियदादि°, समु°
 †सजंत्- उद्°
 †सजंन- जगत्°, वि°
 †सजंयितव्य- वि°
 †सज्- १विश्व°, समु°, सर्व°
 †सजत्- उद्°, वि°
 †सज्य उद्°, वि°, समु°, समुद्°
 सष्ट- ४अ°, अव°, उद्°, वि°, समु°,
 समति°
 सृष्टि- अति°, उद्°, चतुर्विध°,
 जगत्°, तरव°, तद्°, नाना°,
 निमेष°, प्रधान°, १अन्नर°, वि°,
 समुत्पन्न°, ख°
 सृष्टि-कर्म- एकैक°
 †सृष्टि-प्रपञ्च- अध्यक्षादि°
 †सृष्टि-स्थिति-प्रलय-, †सृष्टि-
 स्थिति-व्यसन-, †सृष्टि-स्विय-
 (ति-अ)न्त- जगत्°
 †सृष्ट्यु(ति-उ)पराग- अन्य°
 †सृष्ट्यु क १९; सुद्र २; अन्य ३.
 [उद्°, समुद्°]
 †सृष्ट्यु काम- -मः पै १, १७.
 †सृष्ट्यु- ष्टा मै ५, ७; -धारम् थे
 छ, १४; ५, १३. [°ष्ट- अखि-
 ललोक°, उद्°, सर्व°, हरिह°°]°
 †सृष्टी- -स्त्रीम् यु ५७.

a) श्रु ५, ८२, ५। b) तैत्ति १०, १०, २। c) गण्ड. (५१३९) चनि. संख्यानिर्देशः द.। d) हिरण्यगर्भसु°
 इति अग्न्या. (एतदुद गण्ड. [५१४०+j] सोचः द.)। e) वैपश् यद.। f) अथा. वैपश् यद.। इह =रवि-, उपनिषद्शिरोप-
 नांमिशिरोप-प्रथ.। g) तैत्ति ३, १६, २। h) भावे कर्त्तरि वा कृत्.। i) 'सृष्टम्' इति अग्न्या.। j) 'उत्सृष्टा' इति मैत्रि ६, ७।

सृणि - ष्या त्रि १३.
सृत- सृय, सृवर- √सृ (परि.) द.
√सृप्, >सरीसृप् अव°, आ°, उप°,
 उपाव°, प्र°, प्रति°, प्रत्यव°
 +सरीसृप्- निद्राभय°
 सर्प- रज्जु°, राजन्°
 +सर्पण- भप°, उप°
 +सर्पन्- उपाव°
 +सृप् प्रति°, प्रत्यव°
सेक- सेधित- √सिच् (परि.) द.
सेदिघस्- √सद् (परि.) द.
सेध- सेधन- √सिध् (परि.) द.
सेन, ना- कत्त°, इन्द्र°, उग्र°, नन्दि°,
 १वृहत्°, महत्°, विवच्°, शक्ति°
सैन्य-> सैन्य-बल-याहन-६स°
√सेच् आ°, उप°, नि°, परि°, सम्°
 सेवक- रसिकानन्द°, १राम°, श्रीराम°,
 श्रीरामचन्द्र°
 सेवक- तत्त्व°, तल्लोक°, नि°, वहि-
 क्षीपय°, २ध्वण°, सर्वासंग°
 रस°, हरिसंस्कार°
 सेवमान- आ°, उप°, सम्°, सु°
 से(व>)वा- अभि°, अति°, आ°,
 १कथा°, २कृष्ण°, गुह°, चिरकाल°
 तद्°, २द्वादशवर्ष°, ध्यान°, प्रभु°
 सेवित- अनन्तगण°, उप°, ऋग्य-
 जुःसा°ण°, ऋषि°, कालिन्दीज-
 ल°त°, श्रीष्मत्तु°, दीर्घका°र°,
 धर्मज्ञ°, परि°, ब्रह्मवि°वर°, यज्ञ-
 गन्ध°ण°, योगिनीगण°, वसन्त-
 ऋतु°, वासुदेवा°ह°, सिद्ध°, सु°
 +सेधित्- अभि°, तीर्थ°, ब्रह्मविद्या°,
 विधिक°, विधिकदेश°
 सेव्य- सम्°, सु°
 सेव्यमान- उप°, सु°
२सैन्धव-> सैन्धव-सण्ड- जल-
 गत°:-
√सो, >सा अध्यव°, अन्वव°,

अव°, पर्यव°, व्यव°
 +सान- अव°, पर्यव°
 +साय- अव°
 +रसाय- अध्वव°, व्यव°
 +धसित- अव°, पर्यव°, व्यव°
सो(स-उ)स्ताह- रासागम°
सोपान- अनन्त°, रज्जु°
१सोम- अग्नि>ग्री°, आदित्य°, त्रयो-
 दशान्°, धातु°, पीठ°, रवि°,
 वाहे°, वायु°, शक्ति°, १सूर्य°
 १सौम्य- सौर°
 सोम-प- ४अ°
 +सोम-वार-घट- त्यक्त°
 १सोम्य-> २सौम्य- सर्व°
+२सो(म्य)>म्या विराजा°
+सो(स-उ)ह्लास- अत्यन्त°
सौध- २सुधा- (परि.) द.
सौमनस्य- सुमनस्- (परि.) द.
सौरभ्य- सुरभि- (परि.) द.
सौपुत्र- सुपुत्रा- (परि.) द.
√स्कन्द् अव°, आ°, उप°, प्र°
 स्कन्द- उप°, कठवल्ली°, नन्दि°,
 १शिवोभा°
 +स्कन्द- उप°
स्कन्ध- अनन्त°, ऊर्ध्व°, गुल्फ°, धर्म°,
 १वृहत्°, शिरस्°, १सव्य°
 +स्कन्ध-शूल- शिरःशूल°
√स्खल्, > स्खलत्- प्र°
 +स्खलित- ४अ°, उदात्त°
स्तन- गो°, १घन°, धेनु°, घनोदत-
 घन°, ललना°
 +स्तन-पद- युग्म°
 +स्तन-शूल- अन्नशूल°, शिरः-
 शूल°
स्तम्भ- अधस्°, १प्रधान°, राजन्°
 +स्तम्भ-पर्यन्त- ब्रह्मादि°
√स्तम्भ् अव°, उद्°, उप°, प्र°, वि°,
 सम्°

स्तम्भ- अव°, उद्°, प्र°
 +स्तम्भ्य- अव°, वि°, सम्°
स्तम्भ- एक°, कदली°, चिन्मय°,
 तद्ब्राम्हणशक्ति°, पङ्क°, बाह्याभ्य-
 न्तर°, मणि°, मण्डप°, महत्°, मो-
 ह° १रम्भा°, १वज्र°, विवस्वदध-
 ति°, सर्व°, सर्ववात°, सेना°, हेमन्°
 +स्तम्भ-पट्टा(ऽ-आ)घ- १ज-
 गती°
 +स्तम्भ-सौर- दम्भोलि°
 +स्तम्भक- उप°
स्तम्भन- अभि°, गतिम्...ह्रा°,
 पारवय°...वाच्°, १मारण°,
 मेह°, वि°, शत्रुगति°, शत्रुबुद्धि°,
 शत्रुमुख°
 +स्तम्भनी- सर्व°
स्तम्भित्, नी- अशोप°, त्रैलोक्य°
स्तर- स्तरण-, स्तार-, स्तारविष्णु-,
 स्तोर्ण-, स्तीर्थ- √स्तृ, स्तृ(परि.) द.
√स्तृ अभि°, अभिसम्°, आ°, परि°,
 प्र°, सम्°
स्तव- मन्त्रराजात्मक°, सीता°
 +स्तव-राज- नारदोक्त°
स्तवन- अत्यन्त°, १कल्प°
स्ताव- आ°, प्र°, सम्°
स्तुत- अभि°, गन्धर्वविद्याधर°, प्र°,
 १प्रधान°, सम्°, सु°
स्तुति- २कुशा°, ५न°, निन्दा°,
 निम्°, परमेश्वर°, परि°, प्र°, ब्रह्म-
 प्रणव°, सम्°, सर्वलोक°
 +स्तुति-भेद- नाना°
स्तुत्य अभि°, सम्°
 +स्त्य- अभिसम्°
स्तूयमान- अभि°, सम्°
 +स्तोष- प्र°
स्तोत्र- निस्°, पयदशन्°
 +स्तोत्रा(त्र-अ)धिकरण-
 मन्त्रजपाधिकरण°

a) व्यु. ? = ब्रह्मश- । b) गप् (५४) यति. संख्यानिर्देशः द. । c) व्यु. ? = नाडीविशेष- । d) = ६स ।

e) भावे कर्तरि वा क्तृ ।

स्तोम-अग्नि°, ज्योतिष्°, त्रिणव-
त्रयस्त्रिंशत्°, यज्ञ°, महत्°
स्तोप्यत्-अग्नि°
+स्तुक- १पृष्°
√स्तुभ् अतु°
+स्तुभ्-अतु°, त्रि°
+स्तुप्^{1b}>स्त(पक)>पिका-ऊर्ध्व°
स्तुय √स्तु (परि.) द्र.
√स्तु, स्तु>स्तित्, स्तारि आ°, उप°,
परि°, प्र°, प्रवि°, वि°, समु°
+स्तर- प्र°, वि°
+स्तरण- आ°, उप°
+स्तार- प्र°, प्रवि°, वि°
+स्तारयिष्णु-, +स्तीर्ण- वि°
+स्तीर्थं परि°, वि°, समु°
+स्तुत्- ४अ°
+स्तुति- वि°
स्तेन- ४अ°
स्तेय- ४अ°, गो°, सुवर्ण°, स्वर्ण°
स्तेविन्- ४अ°
स्तोत्- √स्तु (परि.) द्र.
+√स्त्यै>स्थान- व्याधि°
स्त्री- अर्थ°, २कुल°, जयाद्यप्सरस्°,
दिव्य°, १देव°, १देव°, धातु°,
१पर°, पुम्°, रजस्°, राजन्°,
वित्त°, वीर°, २वेद°, २प्रज्ञ°,
शूद्र°संपदु°
+स्त्री-(क)- निस्°
+स्त्री-जन- २व्रज°
+स्त्री-पथ- वलि°
+स्त्री-पुरुष- राजपुरुष°, सर्व°
+स्त्री-योनि-शत- तम् गर्भ १०°.
स्त्री-हरथा- समस्तपात...क°
+स्थ(स्त्री-अ)लं कार- नानाविध°
स्थण्डिल- १शिव°, शृङ्गागार°
√स्थल्>स्थल- आरक्षमणि...त्°
उदक°, उरस्°, एकैक°, कीडा°,
क्रीडाविहार°, २जल°, तुलसीपा-

...क°, द्रव्य°, दादशन्° प्रम्.
√स्था (*स्था.), > तिन्द्, स्थायि
अति°, वाधि°, अतु°, अनुप्र°,
अन्द्°, अन्तद्°, अप°, अभिप्र°,
अभिसम्°, अभ्युद्°, अष°, आ°,
उद्°, उदुद्°, उप°, उपोद्°, नि°,
निस्°, परि°, परिनि°, पर्यव°, प्र°,
प्रति°प्रतिप्र°, प्रत्युद्°, या°, वि°,
विप्र°, स्वयं°, द्युद्°, समु°, समव°,
समा°, समुद्°, समुप°, समुया°,
संप्र°, संप्रति°
+तस्थि- उप°
तिष्ठन्- अतु°, उद्°, निस्°, प्रति°
तिष्ठमान- अतु°, प्र°
+१स्थ, स्था- अहु°, अगृह°, अन्त-
पुर°, अन्तर्°, अन्त-शरीर°,
अन्याधन°, अनधोदपान°, अर्ध-
भाग°, अव°, अवधूतमार्ग°, अहं-
कारपृह° प्रम्.
+२स्थ, स्था- अव°, आ°, परिनि°,
प्रति°, वि°, समु°
स्थाणु- भुवनाधिपति°°, मर्क°
स्थातुम् अव°, परि°
स्थात्- अधि°, उद्°, प्रतिप्र°
स्थान- ४अ°, अंश°, अग्नि°,
अह्नराग°, अधि°, अतु°, अन्तर्°,
अभ्युद्°, अस्त°, अर्थ° प्रम्.
+स्थान-पद्म(द-अ)न्तर-तुल्य°
स्थाना[नो(न-उ)]द्(द)द्(द)द्-
समायुक्त-कम् शि २, १०७.
स्थापक- समु°
स्थापन- आचार°, चेतस्°, प्राण°
+स्थापयत्-, +स्थापया- अभिप्र°
+स्थापयित्- उदुद्°
स्थापित- प्रति°
स्थाप्य उद्°, उप°, प्रति°, समु°,
समुद्°, संप्रति°

+स्थामन्- भास्व°
+स्थाप अधि°, अतु°, आ°, उद्°,
उप°, नि°, द्युद्°, समा°, समुद्°,
समुया°
+स्थापित्- प्रत्युद्°, १रिपर°
स्थापर- जङ्गम°, १देव°, पश्वादि°,
१प्रधान°
१स्थापर-जङ्गम-जगत्°, यावत्°
स्थित- आहु°, अधत्°, अधि°,
अतु°, अन्तर्°, अन्तर°, अभ्युद्°,
अमितयो...रि°, अव°, अष्टपत्रा-
न्तर° प्रम्.
स्थिति- अन्तर्मुख°, अव°, १असक्त°,
आ°, उत्पत्ति°, उदय°, चित्त°,
जगत्°, जडता°, जन्मन्° प्रम्.
स्थिति-प्रलय- विरान्°
+स्थिति-संहार-कर्म- एकैक°
स्थित्य(ति-अ)न्त- १विरव°
+स्थित्- परम>मे°
१स्थिर- ४अ°, अथर्ववेदसिद्ध°,
१चल°, सुधि°, सु°
स्थैर्य- अपरिग्रह°, सुद्धि°,
१मनस्°, १वयस्°, सुपुत्र°
+स्थिर-समाधान- १शेष°
+स्थिर-स्थ- स्थः पदं छ!
स्थूण, गा- अयस्°, अस्थि°, त्रि°,
६स°
स्थेय- अतु°
स्था(ति)>ली- २आज्य°
स्थाली-पाक- मन्त्र°°
स्थूल- ४अ°, १अणु°, महत्°, विवि-
ध°, सर्व°
+स्थौल्य- प्रचारण°°
+स्थूल-देह- पथीकृ...चित°
स्थूल-शरीर- तप्तदुसुव...लक°
+स्थूल(ल-अ)न- अकार°, अर्थ-
मात्रा°, उकार°, मकार°

a) वैपरी यद. । b) व्यु. । c) धान, अघ्याः सा. अया. । d) कर्तारि क्त. । e) भावे क्त. । f) भावेऽधि-
करणे वा क्त. । g) पा. ? यनि. शोषः द्र. । h) गण. (पृ ५५२) 'स्थान->-नात्' इत्यत्र यनि. शोषः द्र. ।

√**स्ना**, > स्नावि अभि^०, नि^०, सम्^०
 स्नात- नि^०, वेदविद्यामत^०
 स्नात-क- ४अ^०
 स्नान- कृत^०, चौर^{००}, १स्नान^०,
 तीर्थ^०, १त्रिकाल^०, त्रिपवण^०,
 देवार्चन^०, पादधावन^०, प्रातः^०,
 भस्मन्^० प्रम्.
 + स्नापन- > स्नापन-पूजा- महत्^०
 + स्नाप्य सम्^०
 + स्नायिन्- त्रिपवण^०
स्नायु- अस्थि^{००}, १त्वच्^{००}, मांस^{००}
 + स्नायिन्- ४अ^०
 √**स्निह्** > स्निग्ध- ४अ^०, शुष्क^०, सु^०
 स्नेह- ४अ^०, अति^०, अतितर^०,
 अत्यन्त^०, अभि^०, गत^०, वत्या-
 धार^०, विगत^०, सु^०
 + स्नेहा(ह-आ)विष्ट-मनस्-
 अत्यन्त^०
 + स्नुया^०- दुहित^०, ५न^०
 √**स्पन्द्** नि^०, परि^०, प्र^०
 स्पन्द- ४अ^०, अस्ति^०, अनिल^०,
 १घन^०, चित्त^०, नि^०, निवृ^०, परि^०,
 प्राख^०, प्राखपवन^०, भुज^०, १मनस्^०
 + स्पन्दन- प्राण^०, प्राणादि^०
 स्पन्दमान- ४अ^०
 + स्पन्दिच- अलात^०, चित्त^०, १वि-
 ज्ञान^०
 √**स्पश्** सम्^०
 स्पष्ट- ४अ^०, सम्^०
 √**स्पृश्** उप^०, सम्^०
 स्पृश- - नोम् पृहं १५० : १००.
 [०श- ४अ^०, १अज्ञ^०, अष्टलोह^०,
 २जल^०, मिह्ना^{००}, तद्^०, तल^०,
 २दर्शन^०, दुस्^०, नाना^०, वृधि-
 यी^{००}, वाद्य^०, मात्रा^०, १मेधा^०,
 शब्द^०, शिवरातचमृत^०, सम्^०
 + स्पृश-स्व- ४अ^०
 स्पृश- १अज्ञ^०, उदक^०, उप^०,
 २दर्शन^०, महावनविहार^०, रमणा-

नन्दलोक^०, संकल्पन^०
 + स्पृशम् सम्^०
 + स्पृश- नमस्^०
 स्पृशत्- सम्^०
 + स्पृश्य उप^०, सम्^०
 + स्पृश्य- सम्^०
 स्पृष्ट- ४अ^०, उप^०, ३भूति^०, सम्^०
 स्पृष्ट- ४अ^०
 √**स्पृह्** > स्पृह(ह->)हा- नि^०, निस्^०,
 विगत^०, ६स^०
 √**स्फट्**(+बधा.) > स्फटिक- सद्योत^{००}
 जपा^०, निर्मल^०, २प्रवाल^{००},
 मह^{००}, २रक्त^{००}, शुद्ध^०
 + स्फटिक- स्वरो^०
 + √**स्फर्** > स्फार- > स्फार-विचार-
 कृत^०
 + √**स्फल्** > स्फालि > स्फालन-
 आ^०
स्फिच् - > स्फिग्-देश- ध्रोज^{००}
 √**स्फुट्** आ^०, वि^०
 स्फुट- वि^०
 + स्फुटित- उदात्त^{००}
 स्फोट- मूर्ति^०, सारत्रयाणकृत^०
 + स्फोटन- अहुलि^०
 √**स्फुर** परि^०, प्र^०, वि^०, सम्^०
 स्फुरण- ४अ^०, ग्राह्यमाहकरूप^०,
 चिदग्नि...शक्ति^०, वि^०
 स्फुरत्- परि^०, प्र^०, रकभज्ञी^०, वि^०
 स्फूर्ति- उत्पत्तिस्थितिसंहार^०
 स्फुलिङ्ग- एक^०
 + √**स्फूर्ज्** > जि अब^०, वि^०
 + स्फूर्जयत्- वि^०
 + स्फूर्जमान- भव^०
 √**स्मि** वि^०
 + स्मय- वि^०, सज्ञ^०
 स्मित- वि^०, युचि^०
 स्मेर- ६स^०
 √**स्मृ**(+बधा.) > स्मारी अनु^०, अप^०,
 उप^०, वि^०, सम्^०

१स्मर- दैव^०
 २स्मर- सावेश^०
 + ३स्मर- - प्रत्याहार^०
 स्मरण- अनु^०, २चरण^०, जन्मन्त्र^०,
 देह^०, २वीला^०, वि^०, २प्रवण^{००},
 श्रीरामचन्द्रमनु^०, संकल्प^०, सज्ञ-
 रहित^०, सधिस्तु...ता^०
 स्मरण-मात्र- तद्^०
 स्मरत्- अनु^०, सम्^०
 स्मार- अप^०
 + स्मारण- वि^०
 + स्मृत्- लोक^०, सर्व^०
 स्मृत- वि^०, सम्^०
 १स्मृति- अन्य^०, दृष्ट^०, नाना^०,
 नानाश्रयिकृत^०
 २स्मृति- अनु^०, उक्तमङ्गानन्द^०,
 एतद्^०, तथा^०, प्रमाण^{००}, वि^०,
 विधिनिषेध^०, श्रद्धा^{००}
 + स्मृत्य अनु^०, वि^०, सम्^०
 √**स्यन्द्** प्र^०
 + स्यन्द- स्वल्प^०
 + स्यन्दिन्- आनन्द^०, प्र^०
 √**स्यत्** > + स्यस्- वि^०
 स्यज्- अलंकार^०, पुष्कर^०, रजत^०, वन्य^०,
 विचित्रपुष्प^०
 स्यन्दुम्, स्यट्- √स्य् (परि.) द्र.
 स्याम- ४अ^०
 √**स्यु** आ^०, परि^०, सम्^०, संप्र^०
 स्यव- सम्^०
 + स्यवण- सर्वाङ्ग^०
 स्यव- आ^०
 + स्याव- पयस्^०, मल^०
 + स्युत्- परि^०
 स्यव- स्युच्^०
 स्योतस्- पयन्^०
 स्य- ४अ^०, १तार^०, सर्व^०, स्व^०
 स्य-कर्मन्- ३धारणा^{००}
 + स्यकर्म-विच्छेदन- रामस्तपा-
 त...तक^{००}

स्व-जन- ४मित्र°, सर्व°
 स्व-तन्त्र-> स्वातन्त्र्य- ४अ°
 स्व-धर्म- वर्णाश्रम°
 स्व-प्रकाश- अखण्डलक्षण°°, २स-
 विदानन्द°
 स्व-भाव- अखण्डानन्द°, अद्वितीय°
 अन्यहीन°, आत्मन्°, एकान्तके...
 स°, कर्मन्°, कार्पण्यदोषोपहत°,
 केवलसत्तामात्र°, तद्°, १दिव्यग-
 न्ध°, देश°, धातु°, नित्यशु-
 ...ह°, निर्मनस्क°, परिज्ञात°,
 प्रसन्न°, १बाल°, युद्धसुक°,
 मधुर°, योनि°, विज्ञानचिन्मात्र°,
 सर्वातीत°, स्व°, स्वयंज्योतिस्°
 *स्वभाव-(क)- शीत°
 स्व-मर्यादा- परस्पर°
 स्व-रस-> *स्वारस्य- अनन्यभा-
 वः...त°
 १स्व-रूप- अखण्डचिद्...न्द°,
 अखण्डानन्द°, अखण्डानन्दम्...
 ता°, अखण्डैक°...मात्र°, अखि-
 लकार्यकारण°, अखण्ड° अधर्ववेद°
 अद्वैत°, अनन्तोपनिषदर्थ°, अन-
 भिन्यक्त° प्रभु.
 *स्वरूप-(क)- धर्मिप्रय°, उ-
 ष्ण°, चतुर्वेदत्र°, पञ्चब्रह्मन्°,
 परतत्त्व°, परिपूर्ण°, पूर्णज्यो-
 तिस°, १ब्रह्मन्°, महाविष्णु°,
 सर्वभाव°, सर्वाभाव°
 *स्वरूप-प्रहाण- ४अ°
 स्व-शक्ति- १अह°
 स्व-संविद्- सर्वान्तरस्य°
 स्व-स्य- ४अ°
 १स्व-स्वरूप- अस्खलित°
 स्वा(स्व-अ)हृत्लि- -लीन जाद ३,
 ६, २१°
 स्वा(स्व-अ)धमन्- -रमा भा २८°.
 [°न्- परिपूर्ण°, १ब्रह्मन्°]
 *स्वात्म-चैतन्य- चैतन्यराक्त्य-

लंकृत°
 स्वाम्म-ज्योतिस्- अभितलेत्रो-
 राशि°
 *स्वा(स्व-अ)धीन-पति(क)>का-
 सुरतानन्दवशीकृत°
 १स्वा(स्व-अ)नुभव- आनन्द°
 स्वा(स्व-अ)नुभूति-गुणवाक्य...त°
 स्वामिन्- ग्राम°, तद्°, स्व°, १स्व-
 रूप°
 *स्वाम्या(मि-आ)ति- समस्त-
 पात...क°°
 स्वा(स्व-अ)र्थ- परार्थान्य°
 *स्वा(स्व-अ)वयव- अनुप्रादि°,
 पयीकृत°
 स्वा(स्व-आ)विर्भाव- नूतन°
 स्वी/कृ(करणे)>*स्वी-कार- तु-
 रीयाश्रम°
 *स्वे(स्व-इ)तर- स्व°
 स्वे(स्व-इ)ष्ट- शिष्टाशुषिष्ट°
 +स्वच्छ्- अमि°, परि°, संपरि°
 *स्वक्त- परि°, संपरि°
 *स्वह- *स्वक्लिन्- अभि°
 ✓स्वद्, >स्वदि आ° -
 *स्वाद- आ°, मु°
 *स्वादह- स्वाय°
 *स्वादित- अशित°, आ°
 स्वादु- ४अ°, अति°, अनेक°
 स्वधा- अनु°, स्वाहा°
 स्वधा/कृ(करणे)>स्वधा-कार-
 ५न°, निष्°
 ✓स्वन् निष्°
 स्वन- निष्°, ६स°
 ✓म्वप् प्र°
 सुप्त- ४अ°, अर्थ°, एक°, प्र°, सु°
 सुप्ति- गाढ°, २जापत्°, सु°
 *स्वप- सु°
 स्वप्न- ४अ°, अति°, अहंमनद°,
 २जापत्°, दीर्घ°, दुष्°
 *स्वप्न-दशन- अवित्र°

*स्वप्न-शील- अति°
 *स्वप्न(प्र-अ)वयोध- युक्त°
 स्वाप- २दिव>वा°
 स्वयम्>स्वयं-प्र(भा)>भ- अन्य-
 हीन°
 स्वर् भूद्°
 स्वर्-लोक- भूलोक°
 स्वर्ग- सर्ग°
 *स्वर्ग-फल- शुभकर्मन्°
 स्वर्ग- ४अ°
 स्वर्ण- धोत्रिय°
 स्वर्ण-स्तेय- ब्रह्महत्या°
 स्व(धु-अ)ल्प- उतम°
 स्वस्ति- -स्ति म २०, ३७°. [°स्ति-
 उप°]
 स्वा(सु-आ)गत- कृत°
 स्वाध्याय- तपस्°, तीर्थ°, व्रत°,
 शौच°
 स्वान्त- आनन्दभरित°
 स्वाहा १नमस्°
 - स्वाहा/कृ(करणे)>स्वाहा-कार-
 ५न°
 ✓स्विद् प्र°
 स्वेद- प्र°, मूत्र°, ४रक्त°
 स्वेद-ज- अरुण°, जरायुम्°
 ✓स्वु- अति°, अनु°, प्रत्या°
 स्वर- ४अ°, आ°, अकारादि°, उदा-
 त°, उदात्तादि°, १ओकार°, तुरी-
 य°, त्रि°, दीर्घ°, धीर°, प्रत्या°,
 पृ°, षोडशन्°, -सप्तन्°, सु°,
 सूक्ष्म°
 *स्वर-वर्ण- पञ्चाशत्°
 *स्वरित- आख्यात°
 *स्वार- अनु°
 ह
 १ह>*हा(ह-आ)दि- कारि°
 ह- ✓हन् (परि.) द.

हंस- ईशावास्य^०, एक^०, ४कल^०,
कुटीचक^०, चतुर्मुखमु^०वन^०, मे-
तामन्यात्मा^०र^०, १पर^०, परम^०,
प्रणव^०, १अमर^०, १गयूर^०,
मार्ताण्डादि^०, रमानानस^०,
सामन्^०, सोऽहम्^०, हंस^०, हंसी^०
हंस-सूत्र- प्रणव^०
✓हृद्(दीप्तौ) > हृद्- १चैत्य^०
हाटक- आरक्षमणि^०ल^०, तप्त^०,
तिलक^०
✓हृद् > हृद्- २हृद्- यमायासन-
जायास^०, लय^०
✓हन् (बधा.) > जिघांस, जहि नो
३. [अति^०, अप^०, अमि^०, अ-
मिप्र^०, अभ्या^०, अव^०, आ^०, उद्^०,
उप^०, नि^०, निर^०, परि^०, प्रति^०,
वि^०, विनि^०, व्य^०, सम्^०]
+घ- परि^०, सम्^०
+घाठ- इन्द्रिय^०, निद्^०, पार्ष्णि^०,
वायुमण्डल^०, वि^०, सम्^०
+घातक- १पाप^०
+घातम् उप^०
+घातिद्- केशिचारु^०, देवनाक्षण^०
+घ्न, घ्नी- अति^०, अप^०, अमिचार^०,
१अहि^०, एनस्^०, कफादिदोष^०,
२काल^०, २कुल^०, कृत^०, कोटिव-
ति^०, गो^०, ग्राम्यारण्यपञ्च^०, जन्मा-
न्तर^०, जरायुगद^०, १पाप^०,
पितृ^०, बहुरोग^०, १ब्रह्मन्^०, १वा-
क्षण^०, मधुकैटभ^०, २मातृ^०,
रक्षस्^०, रोग^०, वक्त्रदोष^०, वि^०,
१विष^०, शत्रु^०, समयु^०, सर्वरक्षस्^०
घ्नत्- विनि^०
+जघिर्वस्- वि^०
+जिघांसु- अमि^०
+ह- आर्ति^०, आष्टि^०
हत्- ४अ^०, अप^०, अमि^०, आ^०,
उद्^०, उप^०, १काम^०, नि^०, प्रति^०,
मटची^०, बनिता^०, व्या^०, सम्^०

+हति- अप^०, तद्^०
+हस्तु- उप^०
+हस्य अप^०, अभिप्र^०, आ^०, उप^०,
नि^०, वि^०, सम्^०
+हस्य, स्या- आजन्मकृत^०, गुरु^०,
गो^०, चराचर^०, पितृ^०, पुम्^०,
पुरप^०, प्राण^०, १ब्रह्मन्^०, ब्रह्मभूष-
वीर^०, भूषण^०, वीर^०, सर्व^०, स्त्री^०
हावा ४अ^०
+हन्- अमित्र^०, अवीर^०, आचार्य^०,
आत्मन्^०, दस्यु^०, दुःख^०, दुःस्वप्न^०,
२दुर्ग^०, पितृ^०, १ब्रह्मन्^०, १वाक्ष-
ण^०, भ्रातृ^०, भूषण^०, २मातृ^०, गति-
वृत्ति^०, रक्षस्^०, दलग^०, विष्णु^०,
वीर^०, वृत्र^०, सर्वदोष^०, स्वप्न^०
+हनन^०- गुरु^०
+ह(न>)ना- डुर^०
हन्तु, घ्नी- अप^०, पथमवक्त्र^०,
खवणासुर^०, लोक^०, विपद्^०, व्य-
सूनीष^०
हनु- वदोन्यस्त^०
हनु-मद्- कालाग्नि^०, कालामिह्र^०,
च्युडप्रताप^०, धिन्तामखि^०, रावा-
नलकालाग्नि^०, पातालगरुड^०,
भद्रजातिवि^०र^०, भूत^०, वीर^०,
२धी^०
हय- १धन^०, सु^०, २हरित^०
हय-भी(वा>)व^०- नारायण^०, वृ-
सिंह^०, २प्रभ^०, १शाम^०, ल-
क्ष्मीनारायण^०
१-२हर- हरद्विज- हरमाण- ✓ह
(परि.) द.
२हरिण- परशु^०
१हरित > २हरित- अत्यन्त^०
+हरित-नील-श्वेत-शुभ्र-अमर-
फलपुष्पमण्डिलता^०
हरिश्चन्द्र- ✓ह (परि.) द.
+हरीतक^० > हारीतक^०- २संवर्तक^०
हर्षण- ✓हृत् (परि.) द.

✓हस् अव^०, उप^०, प्र^०
हस्त- प्र^०
+हास- अर्द्ध^०, अव^०, उप^०, मञ्जु^०,
६स^०
१हस्त- नागेन्द्र^०
हस्तिद्- महत्^०, माया^०
२हस्त- स्तौ जाद ३, ६, २. [स्त-
अण्^०, असि^०, आज्ञन^०, उल्का^०,
ऐकारि^०रिन्^०, २कणा^०, कनक-
दधि^०, कपाल^०, कपालकतिका^०,
कमण्डलु^० प्रयु^०
+हस्त(क)- वरदाभय^०
+हस्त-युग- १सम^०
+हस्त-शुक्ल^०- अशुक्ल^०
+हस्त-स्थ-कौस्तुभ- त्यक्त^०
+✓हा(गती) वि^०, सम्^०
+१जिहान- सम्^०
✓हा(त्यागे), > हापि अव^०, अभ्युद्^०,
अव^०, परि^०, प्र^०, वि^०, सम्^०
+२जिहान- सम्^०
हान- १इतर^०, एकतर^०, तद्^०, प्र^०,
वेदिजन्मन्^०, हेय^०
+हानो(न-उ)पादानो(न-उ)पे-
क्षा-बुद्धि- वचवादान^०नन्द^०
हानि- अप^०, अर्थ^०, आयकारणता^०,
चित्त^०, तद्^०, दृष्ट^०, देह^०, प्रति-
ज्ञा^०, समाधि^०, सर्वज्ञेया^०, सिद्धान्त^०
+हापित- परि^०
+हाय अप^०, अव^०, वि^०
हानि- १अर्द्ध^०, अन्य^०, अवस्थात्रय^०,
अविद्यार्थ^०, अविद्यातत्कार्य^०,
आत्महेयादि^०, २आदि^०, आदि-
मथ्यान्त^०, आनन्दकोश^०, आश्र-
ध्याश्रय^० प्रयु^०
+हानि-कर्म-करण- समस्तपात-
...क^०
हय- ४अ^०, ध्यान^०, प्रतिप्रसव^०
हाक-> हाकिनी^०- भूत^०

a) घान. अपा. । b) कर्तार कृत् । c) बभा. द. =व्ययं, उपनिषदशेष- । d) व्यु. ! =ऋषिविशेष-

e) अच्चाः यो. अपा. ।

हापित-हाय ✓हा (स्यामे) परि. द.
१हार-गुञ्जा°, प्रेयेय°°, नीहार°, पुण्य°,
२सुका°, १शङ्क°°

+ १हार-क- १कर्मिका°
+ १हार-वली- मुक्ताणुमिक्त°
हाय-> १हाय-भाय-कटाक्ष- नेत्र°
हास- ✓हस (परि.) द.
हि ते १, ११°.

✓हि (मघा.) प्र°
२हित- ४अ°, आत्मन्°, एकात्मन्°,
जगत्°, प्रिय°, मित°, सर्वजगत्°,
सर्वभूत°, सर्वलोक°
+ १हित-यथाथां(थं-अ)भिभाष-
ण- भूत°
+ ३हित- प्र°
४हित(>)ता^{११०}-

१हेतु- अन्य°, १आदि°, २भाव°,
उभयवचन°, कर्मफल°, जगदादि-
...ब°, जन्मन्°, तत्र्याति°, तद्°,
दुःखविमुक्ति°, दृष्टान्त° प्रभू.
हेतुक, की- ४अ°, मुक्ति°
+ १हेतु(-क)- अन्य°, १असत्°,
उभय°, १काम°, परस्परकृत°,
पुरुषार्थ°, ६स°, १सत्°

२हेतु-> २हेतुक-
✓हिंस आ°, वि°
हिंसक- वि°
+ १हिंसक-धर्म- वेदादिराज°
+ १हिंसक- ४अ°

हि(स>)सा- ४अ°, १पर°, पापकर्म-
न्°, प्राणिन्°, वि°
+ १हिंस- ४अ°
१हित (<✓घा)- हु°
२-४हित- ✓हि (परि.) द.
हिम- ४अ°

हिरण्य- २स्याम्°, हस्तिन्°

हिरण्य-गर्भ- १मित्र°, विराज्°,
हरि°°

हिरण्य-दंष्ट्र- -ष्ट्रः छां ४, ३, ७, ७, ७.
हिरण्य-यण- -णः मे ६, ३, ४, ७.
+ १हिरण्य(एय-अ)क्ष- शरिष्टका-
रिणी°°

हीरक- तिलक°°, मणि°
✓हु[दानाद(दानो)नयोः] अभि°, आ°,
उप°, प्र°

हृपन- अभिश्रेय°, आ°
हृष्य-> हृष्य-वाहन°- शशिन°
हुत- ४अ°, भा°, १काम°, प्र°, पु°
+ १हुता(त-अ)स- १दीप्त°
+ हुति- आ°
होम- जप°, तद्°, विराज°, प्रत°°,
सायम्°, ज्ञान°°

हृय ✓हि (परि.) द.
+ १हृ(<हु)र्हि वि°
✓हृ, > हारि, जिहीर्षु अनुव्या°, अनु-

समा°, अन्वा°, अप°, अभि°, अभि-
व्या°, आ°, उद्°, उदा°, उप°,
उपसम्°, उपा°, ति°, निर्°, निरा°
परि°, प्र°, प्रति°, प्रत्या°, वि°,
व्यति°, व्यव°, व्या°, संव्यव°,
सम्°, समव°, समा°, समुदा°

जिहीर्ष(>)र्षा- उद्°
१हर- दिवाकर°, हरि°
+ १हर-द्विज- १वैश्वानस°

+ २हर- आ°, एकजन्मन्°, कण्ठो-
त्थितानल°, गलश्लेष्मन्°, गोपी-
जनमनस्°, चक्षुरोग°, २त्रिपुर°,
नाडीजल°, परोक्ष°, पश्यत्<
तः°, १पाप°, १भय°, १मनस्°,
वातापित्तश्लेष्मन्°, शीर्षादितान-
ल°, श्लेष्मन्°, संसाररोग°,
संकल्प°, सर्व°, सर्वदोष°, सर्व-
पाप°, सर्वरोग°, सर्वविप्र°, सर्व-

विप°, सर्वव्यापि°, स्वात्मवन्°
हरण- अप°, आ°, क्लेश°, निर्°,
प्र°, प्रत्या°, प्रति°, भ्रान्ति°, वि°,
भ्रोत्रियस्वर्ण°, सम्°, गमवक्रा-
न्ति°, गमस्तपात्... पाप°, सन्-
स्ताप°

हरण- आ°, परि°, वि°, व्यव°,
व्या°, सम्°

+ १हरमाण- प्रति°
हरि- महत्°, १शिव°°
+ १हरि-द-चन्द्र^{११}- सुपुत्र°°

हर्तुम् सम्°, समा°
हर्ष- उपसम्°, १पशु°, प्रति°, प्रा-
ण°, विप्र°, सम्°

+ २हार- अप°, अभिव्या°, आ°,
उप°, उपसम्°, नि>नी°, प्रति°,
प्रति>ती°, प्रत्या°, वि°, व्यति°,
व्यव°, संव्यव°, सम्°, समा°

+ २हारक- निरा°
+ १हारिका- सर्वाज्ञान°

+ १हारम् समव°
+ १हारया- आ°

+ १हारिन्, णी- अप°, लृणावर्ताडु°,
धर्मसर्वस्व°, १पाप°, प्रत्यर्थिन्°,
राधामनस्°, मार°, वि°, १विप°,
व्यव°, सर्वजनमनस्°

+ १हार्य- ४अ°, अन्वा°, अभि°, आ°,
परि°, व्यव°

हृत- अप°, अभिव्या°, आ°, उदा°,
उपसम्°, प्रति°, वि°, व्या°, सम्°,
समुदा°

+ १हृति- प्रत्या°, व्यव°, व्या°, सम्°
+ १हृष्य अभिव्या°, आ°, उदा°, वप°,
उपसम्°, व्यव°, सम्°, समा°

१हृद्- हृदि नाप १५१ : ७ : ८ : [१७-
२भक्त°, भूत°, विश्वात्मन्°, सर्व°,
सु°, स्व°]

a) अन्वा : यो. अथा। b) गप. (५९७७) यनि. संख्यानिर्देशः द.। c) गप. (५९७८) यनि. संख्यानिर्देशः द.। d) दन्तः इति ङैउ दे, २, ४ (ह. टि. वैपय यस्या.)। e) व्यपक्षः इति हिष्ट १, १७, ३; 'हिरण्यपणं शकुने' इति पाए ३, १५, २०. [तु. टि. वैपय यस्या. (एतद्वत् गप. [५११५९e] शोधः द.।)]। f) गप. (५९८०) यनि. संख्यानिर्देशः द.। g) भावे कर्त्वे वा ङैउ। h) पा ६, १, १५३। i) अन्वा : सं. अथा।

*हृत्(क)- २श्री°
हृदि>हृदि-स्था- -स्थाः नाप
१५१:७°
हृष- सकलभुवन°
२हृद्->२हृद्-ले(रा>)वा- शक्ति-
भूत°
हृदय- -यम् गना २,१३,२७. [°व-
४अ°,अन्तर°,आनन्दस्वा...र्ण°
गल°,युग्राहा...त°, नाभि°,
न्यस्त°,पाद°, मस्तक°,मूला-
धार°, १६द°, ललाट°, लला-
ट°, शान्त°, शिरस्°, ६स°,
सकलकीकरणाहुष्ठ°,संपूर्ण°, सर्व°,
सर्वजन°, स्व°]
हृदय-प्रभिय- १अज्ञान°
हृदय-ञ- ४अ°
*हृदय-शूल- शिरःशूल°
*हृदया(य-आ)घ(दि-अ)घ्वा-
(अ-अ)न्त- तनुक्त°

✓हृप् प्र°
हृपं- अति°, १काम°, जरा°,
निन्दा°,प्राप्त°,रोमन्°, विस्मृत-
प...ति°, शक्ति°, शोक°
*हृपंग- रोमन्°
हृष्ट-सु°
✓हृद्(, < > ल) अय°
*हृद्वन- १देव°
*हृद्वमान- ४अ°
*हृद्वल(न>)ना- अव°
*हृद्वल(ल>)ला- अव°, ६स°
१-२हेतुक- ✓हि (परि.) द.
हेमन्- हुत°
*हृमा(य-घ)वि- सुमेद°
+ ✓हु अप°, अपनि°, नि°
*हुति- नि°
हृद्- नाभि°
✓हृस् > हृस्व- ४अ°, अति°, उदात्त°
*ह्रास- वृद्धि°
✓ह्राद्, > *ह्राद- आ°

✓ह्रीं > १ही- तपस्°
२ह्रीं > ह्रीं > १ह्रीं-कार-> *ह्रींका-
रिन्- एंकारि°
✓ह्राद् आ°, प्र°
ह्राद- अति°, आ°, प्र°
*ह्रादन- आ°
ह्रादिन्- प्र°
+ ✓ह्रल्, > ह्रल- वि°
✓ह्रु, > *ह्र- प्र°
✓ह्र, > हु, ह्र, ह्रवामहे मउ ९, ५९°;
ह्रवामि मउ २०, ३९°. [आ°,
उप°, नि°, समा°]
ह्रव- वे-वे मउ २०, ३९°. [°व-
आ°, नि°, सु°]
ह्रत- पुष्ट°
*ह्रय आ°
ह्रोत्- चतुर्, सत्त्°
*ह्रोत्र- अग्नि°, वीति°
*ह्रय- समा°
*ह्रयितवै, *ह्रान- आ°

इति परिशिष्टम् ।

a) अथवा: सं. अया. । b) 'सुपिरम्' इति Jc. । c) तैआ १०, १०, २ । d) ऋ ६, ४७, ११ (तु. दि.
वैपरे यस्या.) । e) ऋ ६, ४७, ११ ।

मूलभागीयमुद्राक्षरभेद-शोधाः ।

पृ १३	अत्राप-	>	अत्रार्प-	पृ ८५	अभ्यासभेदतः >	अभ्यासभेदतः
" ३२	आदित्य-	>	आदित्य-र्ये	" १०५	उत्त-✓वि द.	उत्त-✓वि (परि.)द.
" ६२	अन्तर-बहिस	>	अन्तर-बहिस	" २०४	गुरु-रु: रु: २०;>	गुरु-रु: रु: २०;

टिप्पणभागीयमुद्राक्षरभेद-शोधाः ।

पृ ५१b	यत्राऽय	>	यत्राऽयं	पृ ३८५n	°रज्ज्व-	>	°रज्ज्व-
" ६९j	वित्तम्	>	वित्तर्प°	" ५३८n	सकृत	>	सकृत्
" ११८m	दिक	>	दिक्	" ६०९c	अयादने	>	अयादाने
" १४७j	शयः	>	शोयः	" ६३८g	मनन	>	मनने
" १६४m	एकाऽनक°	>	एकाऽनेक°	" ८४८c	अर्थे ?	>	अर्थे ?
" २६३f	विशयः	>	विशेयः				